

संक्षिप्त महाभारत



सम्पादक तथा संगीधक
जयदयाल गोयन्वका

संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंडके भावानुवाद की विषय-सूची

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

कर्णपर्व

सेनापतित्वमें युद्धका आरम्भ और भीमके द्वारा क्षेमधूर्तिका वध	...	८६५	पाञ्चालोका तथा भीमद्वारा भानुसेनना संहार और सात्यकिमें वृषसेनकी पराजय	...	८९३
त्रिन्द-अनुविन्द और चित्रसेन तथा चित्रका वध, अश्वत्थामा और भीमसेनका भयंकर युद्ध सशप्तको और अश्वत्थामाके साथ अर्जुनका घोर संग्राम, अर्जुनके हाथमें दण्डधार और दण्डका वध	...	८६७	४२३-कर्ण और युधिष्ठिरका संग्राम, कर्णकी मूर्च्छा, कर्णद्वारा युधिष्ठिरका पराभव तथा भीमके द्वारा कर्णका परास्त होना	...	८९६
अर्जुनके द्वारा सशप्तकोका तथा अश्वत्थामाके हाथसे राजा पाण्ड्यका वध	...	८७१	४२४-भीमसेनके द्वारा घृतराष्ट्रके कई पुत्रों तथा कौरवयोद्धाओंका भीषण संहार	...	८९८
राजाका वध, सहदेवके द्वारा दुःशासनकी तथा कर्णके द्वारा नकुलकी पराजय और कर्णद्वारा पाञ्चालोका संहार	...	८७३	४२५-अर्जुनद्वारा सशप्तकोंका संहार	...	९००
उलूक-युयुत्सु, श्रुतकर्मा-शतानीक, शकुनि-सुतसोम और शिखण्डी-कृतवर्माके द्वन्द्वयुद्ध; अर्जुनके द्वारा अनेकों वीरोका संहार तथा दोनों ओरकी सेनाओंमें घमासान युद्ध	...	८७५	४२६-कृपाचार्यके द्वारा मिश्रण्डीकी पराजय, सुकेतुका वध, घृष्टद्युम्नके द्वारा कृतवर्मा और दुर्योधनका परास्त होना तथा कर्णद्वारा पाञ्चाल आदि महारथियोंका संहार	...	९०१
५-दुर्योधन और कर्णका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्यकिके साथ संग्राम	...	८७७	४२७-अर्जुनके द्वारा सशप्तकोंका संहार और अश्वत्थामाकी पराजय	...	९०३
६-कर्णके प्रस्ताव और दुर्योधनके आग्रहसे शल्यका आनाकानीके बाद कर्णका मारथि बनना स्वीकार करना	...	८७८	४२८-अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा, घृष्टद्युम्न और कर्णका युद्ध, अश्वत्थामाके द्वारा घृष्टद्युम्नकी और अर्जुनके द्वारा अश्वत्थामाकी पराजय	...	९०५
७-त्रिपुरोकी उत्पत्ति और उनके नाशका प्रयत्न	...	८८१	४२९-भगवान् श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनसे कौरवोंके आक्रमण तथा भीमके पराक्रमका वर्णन	...	९०६
८-शल्यको सारथि बनाकर कर्णका युद्धके लिये प्रयाण	...	८८४	४३०-दोनों पक्षके दौंदाओंका द्वन्द्वयुद्ध तथा भीमसेनका पराक्रम	...	९०७
९-शल्यके सारथ्यमें कर्णका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान और दोनोंका कटु-सम्भाषण	...	८८५	४३१-कर्णसे पराजित और घायल होकर युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें विश्रामके लिये जाना	...	९०९
१०-राजा शल्यका कर्णको एक हस्त और कौण्डिका उपाख्यान सुनाना	...	८८८	४३२-अर्जुनद्वारा अश्वत्थामाकी पराजय, कर्णद्वारा भागवास्त्रका प्रयोग, श्रीकृष्ण और अर्जुनका युधिष्ठिरसे मिलनेके लिये छावनीपर जाना तथा युधिष्ठिरका उनसे कर्णके मारे जानेका समाचार पृथ्थना	...	९१०
११-कर्ण और शल्यका कटुसम्भाषण और दुर्योधनका उन्हें समझाना	...	८९०	४३३-अर्जुनकी बातसे कर्णके जीवित रहनेका पता पाकर युधिष्ठिरका उन्हें धिक्कारना तथा युधिष्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए अर्जुनकी भगवान्द्वारा धर्मका तत्त्व समझाया जाना	...	९१३
१२-कौरव-व्यूहनिर्माण, कर्ण और शल्यकी बात-चीत, अर्जुनद्वारा सशप्तकोंका, कर्णद्वारा					

४१४-भगवान् कर्णको अर्जुनको प्रतिभासम्बद्ध, भगवान् तथा भगवन्पुत्रको वनागत और मुनिविराटको का जलमे घोसना ११७

४१५-अर्जुनको मणिचिह्नको धमा मंगला, मुनिविराटको मणिचिह्नको भगवन्को देना, अर्जुनकी वनागत और भगवान् कृपणद्वारा अर्जुनके पराक्रमका कथन ११९

४१६-अर्जुनके वीरवीर्य उद्गार, दोनों पक्षकी सेवा और इन्द्रमुद्ग, सुगोत्रका वध, भीमसेनका पराक्रम तथा कर्णके जलमे उतकी प्रणयना १२३

४१७-अर्जु और भीमसेनके द्वारा वीर्यमेनका वध, भीमके जलमे शकुनिका मुच्छित होना १२६

४१८-कर्णकी मायके मान्यमेनका पलायन, भीमका और अर्जुनकी कौनो देव शल्य और कर्णकी वातपीड तथा अर्जुनद्वारा वीर्यमेनका विधाय १२७

४१९-अर्जु और भीमसेनके द्वारा वीर्यवीरिका मृत्यु तथा कर्णका पनाक्रम १३०

४२०-भीमद्वारा सु नामका वध-पाल और उमका वध, सुभामन्द्वारा विधायका वध तथा भीमका अर्जुनका १३३

४२१-भृशमशुके का पुत्रोका वध, कर्णका भय और कर्णका मन्त्रका, मनुज और कृपसेनका मुद्ग, अर्जुनद्वारा कृपसेनका वध तथा कर्णके विधायके भीमद्वारा अर्जुनकी वातपीड १३६

४२२-अर्जुनके देवतावीरि परेताने उदा और विधायके अर्जुनके विधाय घोषित करना तथा कर्णका शकमे और अर्जुनका श्रीकृष्णके शर्णापन १३८

४२३-भृशमशुक दुर्योधनके मणिचिह्न निसे प्रणयन, दुर्योधनद्वारा कर्णकी अर्जुनकी तथा कर्ण और अर्जुनके मुद्गमे भीम और भीमद्वारा कर्णकी मुनिविराट करना १४०

४२४-कर्ण और अर्जुनका मुद्ग १४३

४२५-भगवान्द्वारा अर्जुनकी अर्जुनका शकमे उदा तथा अर्जुनके शकमे वध १४४

४२६-अर्जुनके पराक्रमे कर्णकी मुद्गा दुर्योधनके मुद्ग मुनिविराटके विधायके मन्त्र शर्णापन कर्णकी शर्णापन और भगवान्द्वारा कर्णका शकमे १४६

४२७-कर्णका वध और शल्यका दुर्योधनको मान्यका देना १४८

४२८-भीम और अर्जुन आदिके मन्त्रमे दुर्योधनके शकमेपर भी कौरव-सेनका भागना तथा दोनों ओरकी सेनाओंका विधायके जाना १५०

४२९-कर्णवधके समाचारके प्रसन्न हुए युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा, राजा भृशमशु और मान्यारीका शोक तथा कर्णपर्वके श्रवणका माहात्म्य १५३

शल्यपर्व

४५०-भृशमशुकका विधाद; कृपाचार्यका दुर्योधनको मन्त्रिके निसे ममदाना, किन्तु दुर्योधनका मुद्गके निसे ही निश्चय करना १५६

४५१-राजा शल्यका सेनापतिके पदपर अभियेक और भगवान् श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको शल्यसे नष्टके निसे आदेश १५९

४५२-शल्यके सेनापतित्वके मुद्गका आरम्भ और नगुलद्वारा कर्णके घोष तीनों पुत्रोंका वध १६१

४५३-शल्यका युधिष्ठिर और भीमसेनके साथ मुद्ग, दुर्योधनद्वारा नैकितानका तथा युधिष्ठिरद्वारा द्रुमसेनका वध १६४

४५४-राजा शल्यका पराक्रम, अर्जुन-अश्वत्थामाका मुद्ग तथा राजा मुरथका वध १६६

४५५-शल्यका पराक्रम तथा शल्यके साथ युधिष्ठिरका मुद्ग १६८

४५६-शल्यका वध १७०

४५७-मद्रराजके अनुचरोंका वध, कौरव-सेनका पलायन, भीमद्वारा टक्कीम हजार पैदलोंका मंहार और दुर्योधनका अपनी सेनाको उल्लाहित करना १७२

४५८-मान्यका वध, मात्यकि और कृतवर्माका मुद्ग तथा दुर्योधनका पनाक्रम १७५

४५९-दोनों सेनाओंका घोर संग्राम और शकुनिका मुद्ग-मुद्ग १७७

४६०-अर्जुनद्वारा श्रीकृष्णके दुर्योधनको अनीनिका कुपणिका वनागत जाना तथा कौरवोंकी रथसेना और नष्टमेनका मंहार १७८

४६१-भीमद्वारा भृशमशुकके चारह पुत्रोंका वध, श्रीकृष्ण और अर्जुनकी वातपीड तथा अर्जुनद्वारा निगलोंका मंहार १८०

१-शकुनि और उलूकका वध ...	९८२
२-दुर्योधनका सरोवरमें प्रवेश और मुयुत्सुका हस्तिनापुर जाना ...	९८४
६४-व्याधसि दुर्योधनका पता पाकर युधिष्ठिरका सेनासहित सरोवरपर जाना और कृपाचार्य आदिका दूर हट जाना ...	९८८
६५-युधिष्ठिर और दुर्योधनका संवाद, युधिष्ठिरके कहनेसे दुर्योधनका किसी एक पाण्डवसे गदायुद्धके लिये तैयार होना ...	९९०
६६-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको उलाहना, भीमकी प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधनमें वायुद्ध, फिर बलरामजीका आगमन और उनका स्वागत ...	९९३
६७-बलरामजीकी तीर्थयात्रा तथा प्रभास-क्षेत्रका प्रभाव ...	९९६
६८-उदपान स्तंभकी उत्पत्ति—वित मुनिका उपाख्यान ...	९९८
४६९-विनयन आदि तीर्थोंका वर्णन, नैमिषीय तथा सप्तसारस्वत तीर्थोंका विशेष वृत्तान्त ...	९९९
४७०-रथजङ्गेके आश्रमपर आर्षिपेण आदि तथा विश्वामित्रकी तपस्या, यामाततीर्थकी महिमा और अरुणामे स्नान करनेसे इन्द्रका उद्वार ...	१००१
४७१-सोमतीर्थ, अग्नितीर्थ और बदरपाचनतीर्थकी महिमा ...	१००३
४७२-इन्द्रतीर्थ और आदित्यतीर्थकी महिमा, देवल-जैगीण्य ऋषि तथा बृद्धकन्याक्षेत्रकी कथा ...	१००४
४७३-समन्तपञ्चकतीर्थ (कुरुक्षेत्र) की महिमा तथा नारदजीके कहनेसे बलदेवजीका भीम और दुर्योधनका युद्ध देखने जाना ...	१००६
४७४-बलरामजीकी सलाहसे सबका समन्तपञ्चकमें जाना तथा वहाँ भीम और दुर्योधनमें गदा-युद्धका आरम्भ ...	१००८
४७५-भीम और दुर्योधनका भयंकर गदायुद्ध ...	१०१०
४७६-भीमके प्रहारसे दुर्योधनकी जंघाओंका टूटना, भीमद्वारा दुर्योधनका तिरस्कार और युधिष्ठिरका विलाप ...	१०१२
४७७-क्रोधमें भरे हुए बलरामको श्रीकृष्णका समझाना और युधिष्ठिरके साथ श्रीकृष्णकी तथा भीमसेनकी वातचीत ...	१०१४
४७८-पाण्डवोंका दुर्योधनके दिग्विमें आकर उसपर अधिकार करना, अर्जुनके रथका दाह ...	१०१५

४७९-भगवान् कृष्णका हस्तिनापुर जाना और धृतराष्ट्र तथा गांधारीकी मान्यना देकर वापस आना ...	१०१७
४८०-दुर्योधनका विलाप तथा अश्वत्थामाका विषाद, प्रतिज्ञा और सेनापतिके पदपर अभिषेक ...	१०१९

सौप्तिकपर्व

४८१-तीनों महारथियोंका एक वनमें शिथिल करना और वहाँ अश्वत्थामाका पाण्डवोंको कपट-पूर्वक मारनेका निश्चय करके कृपाचार्य और कृतवर्मासे सलाह लेना ...	१०२२
४८२-कृपाचार्य और अश्वत्थामाका संवाद ...	१०२३
४८३-अश्वत्थामाका श्रीमहादेवजीपर प्रहार, उनका पराभव और फिर आत्ममर्पण करके उनसे धङ्ग प्राप्त करना ...	१०२६
४८४-अश्वत्थामाके द्वारा पाण्डव और पाञ्चाल वीरोंका संग्रह ...	१०२९
४८५-अश्वत्थामादिका दुर्योधनको सब समाचार सुनाना तथा दुर्योधनकी मृत्यु ...	१०३२
४८६-राजा युधिष्ठिर और द्रौपदीका मृत पुत्रोंके लिये शोक तथा द्रौपदीकी प्रेरणासे भीमसेनका अश्वत्थामाको मारनेके लिये जाना ...	१०३३
४८७-श्रीकृष्णका अश्वत्थामाके विषयमें एक पूर्व-प्रसंग सुनाना ...	१०३५
४८८ अश्वत्थामा और अर्जुनका एक-दूसरेपर ब्रह्मास्त्र छोड़ना तथा नारद और व्यासजीका उन्हें शान्त करा देना ...	१०३६
४८९-पाण्डवोंका द्रौपदीके पास आकर उसे मणि देना तथा श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको अश्वत्थामाके अद्भुत पराक्रमका रहस्य बताना ...	१०३९

स्त्रीपर्व

४९०-शोककुल धृतराष्ट्रको सञ्जय और विदुरका समझाना ...	१०४०
४९१-विदुरजीका महाराज धृतराष्ट्रके प्रति संसारके स्वरूप, उसकी भयंकरता और उससे छूटनेके उपायका वर्णन करना ...	१०४२
४९२-शोकमग्न राजा धृतराष्ट्रको महर्षि व्यासका समझाना ...	१०४४

४९३-विष्णुशैले सम्मानने राजा पुराणद्वारा कुम्ह-
कुम्हकी विष्णुकी साथ कुम्हके प्रति और जाना
गया सम्मान प्राप्त्याये आदिने उनकी भेट
होना ... १०४६

४९४-सायन्वीका राजा पुराणद्वारा और सायन्वीके
भिरना, सायन्वीका भीममेतपर श्रेय तथा
रामजी और भीममेतका उमे मान करना १०४७

४९५-सुन्दरगीमे कृष्णकर विष्णुकी विनाय करना
और सायन्वीका श्रीकृष्णके उनकी दनाका
मर्तन करना ... १०४१

४९६-सायन्वीका श्रेय मरे हुए शीरोंको देणकर
विचार करना और श्रीकृष्णकी साथ देना १०४३

४९७-राजा पुराणद्वारा और युधिष्ठिरकी वानवीत
तथा मरे हुए मोटाश्रीका शक्यम ... १०४५

४९८-साय विष्णुका अपने सम्बन्धियोंको जलाशयनि
देना तथा कृष्णके सुरमे कर्मके जगका
रूपय कृष्णपर भाव्योके महिन राजा
युधिष्ठिरका मोटाकुन होना १०४६

शान्तिपर्व

४९९-शान्ति युधिष्ठिरकी सायन्वीका देणे हुए
देवनि नारदा, उन्हें कर्मका पूर्वचरित मुनाना १०४८

५००-युधिष्ठिरका पर छोड़कर वनमे जानेका
विचार और अर्जुनद्वारा दनाका विरोध ... १०६१

५०१-युधिष्ठिरका वनयागी, मुनि एव मन्वायी
होना विचार और भीम और अर्जुनद्वारा
उपका विरोध ... १०६३

५०२-युधिष्ठिरको नरुन, मारने तथा शीरशीका
समझना ... १०६५

५०३-अर्जुनद्वारा वरुणीका तना सम्पन और भीमका
युधिष्ठिरको सम्पन और भाग्युष्ट करनेका
प्रयास ... १०६७

५०४-युधिष्ठिरद्वारा भीमको पादकार और मुनिवृत्ति-
की प्रयास तथा अर्जुनका राजा जनकके
द्वाराके उन्हें समझना ... १०६९

५०५-साय विष्णुका और अर्जुनका राजा
युधिष्ठिरको सम्पनना ... १०७१

५०६-साय विष्णुका कृष्ण-विष्णु और राजा
द्वाराके हुएतना देकर युधिष्ठिरको प्रका-
शकारके ही सम्पनित करना ... १०७२

५०७-व्यामजीका युधिष्ठिरके कालकी महिमा कहना
तथा युधिष्ठिरका अर्जुनके प्रति पुनः अपना
शोक प्रकट करना ... १०७४

५०८-श्रीव्यामजीका राजा युधिष्ठिरको अपना
मुनिका कहा हुआ धर्मोपदेश मुनाना ... १०७६

५०९-श्रीकृष्णका नारदजीद्वारा सुञ्जयके प्रति कहे
हुए अनेकों राजाओंके दृष्टान्त मुनाकर
राजा युधिष्ठिरको समझाना ... १०७७

५१०-श्रीव्यामजीका राजा युधिष्ठिरको राजधर्मका
उपदेश देना ... १०८१

५११-साय और उनके प्रायश्चित्तोंका वर्णन ... १०८२

५१२-प्रायश्चित्तयोग्य कर्म, अप्रकी अनुद्धि और
दानके अनधिकारीके विषयमें स्वायम्भुव
मनुका प्रसंग ... १०८५

५१३-व्यामजी और भगवान् श्रीकृष्णकी सनाहते
महाराज युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमें आना १०८६

५१४-महाराज युधिष्ठिरका अभिषेक, उनकी
राज्यव्यवस्था तथा उनके द्वारा सम्बन्धियोंके
श्राद्ध ... १०८८

५१५-युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, भाइयों और
कुटुम्बियोंका सत्कार तथा नाना प्रकारके दान १०८९

५१६-युधिष्ठिरका भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे उनके
साथ भीष्मजीके पाम जानेका विचार ... १०९१

५१७-भीष्मद्वारा भगवान्की स्तुति ... १०९२

५१८-परशुरामजीका चरित्र ... १०९६

५१९-श्रीकृष्णद्वारा भीष्मकी प्रशंसा, भीष्मद्वारा
श्रीकृष्णकी स्तुति और श्रीकृष्णका भीष्मसे
धर्मोपदेशके लिये कहना ... १०९८

५२०-भीष्मका अपनी अमर्त्यता प्रकट करना और
भगवान्का उन्हें वरदान देकर जाना तथा
दूगरे दिन पुनः सबके साथ वहाँ उपस्थित होना ११००

५२१-श्रीकृष्ण और भीष्मकी वानवीत तथा भीष्म-
का आश्वासन पाकर युधिष्ठिरका प्रश्न
करनेके लिये तैयार होना ... ११०१

५२२-युधिष्ठिरके पृच्छनेपर भीष्मका उनमे राजा-
चित्त शिष्टाचारका वर्णन ... ११०२

५२३-राजाके नीतिपूर्ण चर्चाका वर्णन ... ११०४

५२४-राज्यशासनके कुछ साधनोंका वर्णन ... ११०६

५२५-प्रतापीके नीतिशास्त्र तथा राजा पृथुके
प्रसंगका वर्णन ... ११०६

- ५२६—राजा युधिष्ठिरके प्रदत्त करनेपर भीमर्षीका चारों वर्ण और चारों आश्रमोंके धर्म मुनाना ११०९
- ५२७—सर्वसाधारणके धर्म, राजधर्मकी महत्ता और उसके विषयमें इन्द्रवैशम्पयी भगवान् विष्णु और राजा मान्दानाके संवादका वर्णन ११११
- ५२८—राजधर्ममें चारों आश्रमोंके धर्मोंका समावेश १११३
- ५२९—प्रजाके अन्वयद्वयके निचे राजाकी आवश्यकताका निरूपण तथा इस विषयमें बृहस्पति और राजा वसुमनाके संवादका उल्लेख १११४
- ५३०—राजाके प्रधान कर्तव्योंका तथा युगनिर्माणमें दण्डनीतिकी प्रधानताका वर्णन १११७
- ५३१—राजाकी इहलोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति करानेवाले छत्तीस गुणोंका वर्णन १११९
- ५३२—राजधर्मका वर्णन, राजाके निचे विद्वान् पुरोहितकी आवश्यकता तथा दोनोंमें भेद रहनेसे नाम ११२०
- ५३३—ब्राह्मण और क्षत्रियकी सम्मिलित शक्तिका प्रभाव तथा राजाके धर्मानुकूल व्यवहारोंका वर्णन ११२२
- ५३४—उत्तम-अधम ब्राह्मणोंके साथ राजाका बर्ताव और कैकयराजाका उपाख्यान ११२३
- ५३५—आपत्कालमें ब्राह्मण आदि वर्णोंके कर्तव्य तथा ऋत्विजोंके लक्षण ११२४
- ५३६—मित्र और अमित्रोंकी पहचान ११२७
- ५३७—मन्त्रीकी जीव—कानकवृक्षीय मुनिका उपाख्यान ११२८
- ५३८—सभासद् आदिके लक्षण तथा गुण मनाह मुनेके अधिकारी ११३०
- ५३९—राजाकी व्यावहारिक नीति और उसके निवासयोग्य नगरका वर्णन ११३२
- ५४०—राष्ट्रकी रक्षा तथा वृद्धिके उपाय और प्रजामें कर लेनेका ढंग ११३४
- ५४१—राजाके नीतिपूर्ण बर्ताव और उसके द्वारा धर्मपालनकी आवश्यकता ११३६
- ५४२—धर्माचरणसे लाभ तथा राजाके धर्म ११३८
- ५४३—राजाके आचरणके विषयमें वामदेवजीके उपदेशका उल्लेख ११३९
- ५४४—युद्धनीतिका वर्णन ११४१
- ५४५—युद्धमें होनेवाली हिमाके प्रामत्तित और वीर तथा कायरोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंका वर्णन ११४२
- ५४६—सैन्यसंचालनकी विधि, योद्धाओंके लक्षण और विजयके विज्ञानका वर्णन ११४३
- ५४७—कालकवृक्षीय मुनिका उपदेश—राज्य, खजाना और सेना आदिसे वञ्चित हुए अमहाय राजाका कर्तव्य ११४६
- ५४८—कालकवृक्षीय मुनिका कूटनीति बतलाना और क्षेमदर्शीका राजा जनकसे मिल कर देना ११४८
- ५४९—माता, पिता और गुरुकी सेवाका उपदेश, मृत्यु-असत्यकी पहचान तथा व्यावहारिक नीतिका वर्णन ११४९
- ५५०—दुःखसे छूटनेका उपाय और मृत्युके स्वभावकी पहचानके निचे व्याघ्र तथा सियारकी कथा ११५१
- ५५१—शक्तिशाली शत्रुके सामने नम्र होने और मूर्खकी बातोंकी अनमुनी करनेका उपदेश तथा राजा और राजसेवकोंके गुणोंका वर्णन ११५५
- ५५२—राजधर्म और दण्डके स्वरूपका वर्णन ११५७
- ५५३—दण्डकी उत्पत्ति तथा उसके धर्मियोंके हाथमें आनेकी परम्पराका वर्णन ११६०
- ५५४—त्रिवर्गका विचार और आङ्गिरस तथा कामन्दकका संवाद ११६१
- ५५५—शील-निरूपण—इन्द्र और प्रह्लादकी कथा ११६२
- ५५६—यम और गौतमका संवाद तथा आपत्तिके समय राजाका धर्म ११६३
- ५५७—आपत्तिग्रस्त राजाके कर्तव्य तथा मर्षादाका पालन करनेवाले दस्युओंकी मद्गतिका वर्णन ११६५
- ५५८—राजाके निचे धनसंग्रहके स्थान तथा अनागत विपत्तिमें सावधान रहनेमें तीन भन्मोंका दृष्टान्त ११६६
- ५५९—शत्रुओंसे घिर हुए राजाके कर्तव्यके विषयमें विद्वान् और चूहेका आख्यान ११६७
- ५६०—शत्रुमें मदा सावधान रहनेके विषयमें राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिडियाका प्रसंग तथा ब्राह्मणमेंवाका माहात्म्य ११७०
- ५६१—शरणागतकी रक्षा करनेके विषयमें एक बर्तनीया और कपोत-कपोतीका प्रसंग ११७५
- ५६२—अबुद्धिपूर्वक क्रिये हुए पापकी निपुतिके विषयमें राजा जनमेजय और इन्द्रोत्तमुनिका प्रसंग ११७८
- ५६३—मृतककी पुनर्जीवनप्राप्तिके विषयमें एक ब्राह्मण बालकके जीवित होनेका प्रसंग ११७८

५१२-प्रथम दर्शन के अनुसार इतल कलाके नियम
केवलपुत्र और मातृका प्रसंग ... ११=२

५१५-योगके सात, आठ पुरुषोंके लक्षण, अज्ञानके
योग तथा दमनी प्रसंग ... ११=४

५१६-सात और अज्ञानके विषय, योग-काम आदि
दोषोंका वर्णन तथा मुक्त्य पुरुषोंके लक्षण ... ११=६

५१७-सात और इनके प्रत्यक्षिकता ... ११=८

५१८-धर्म, कर्म, काम और मोक्षके विषयमें
विद्वान् तथा साधारणोंके पक्ष-पक्षके विचार ... ११९=०

५१९-विद्युत कलाके और न कलाके योग पुरुषोंके
लक्षण तथा कृष्ण मोक्षमयी कथा ... ११९=१

५२०-साक्षात्पुरुष विषयके शान्तिके विदे गदा
संज्ञिका और साक्षात्के संवादका वर्णन ... ११९=६

५२१-साक्षात्पुरुषोंके वर्णनके विषयमें विना-
पुरुषा संवाद ... ११९=७

५२२-साक्षात्पुरुषोंके विवेक और स्वात्मकी
महिमा ... ११९=९

५२३-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें विद्वान् दर्शन तथा
विद्वान्तरक कला और मुनिवर योग्यकी
वर्णना ... १२०=०

५२४-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें प्रह्लाद और
अज्ञान साक्षात्पुरुषा संवाद ... १२०=१

५२५-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२०=२

५२६-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२०=४

५२७-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२०=६

५२८-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२०=८

५२९-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२०=९

५३०-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२१=०

५३१-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२१=२

५३२-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२१=४

५३३-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२१=६

५३४-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२१=८

५३५-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२१=९

५३६-साक्षात्पुरुषोंके विषयमें साक्षात्पुरुषोंके—
उन विषयमें साक्षात्पुरुषोंके साक्षात्पुरुषा
संवाद ... १२२=०

५२-साक्षात्पुरुषोंके संवादका उत्तरके रूप
योग तथा साक्षात्पुरुषोंके निरूपण ... १२२=२

५२६-साक्षात्पुरुषोंके दोषोंके लक्षणके नियम, ज्ञान,
वेदांग्य और ब्रह्मचर्यका उपदेश ... १२२=४

५२७-साक्षात्पुरुषोंके नियम प्रकृत करनेका उपदेश ... १२२=६

५२८-साक्षात्पुरुषोंके पञ्चविश्वका राजा जनकको उपदेश ... १२२=८

५२९-साक्षात्पुरुषोंके महिमा तथा व्रत और तपका वर्णन,
ब्रह्मविद्याका उपदेश ... १२३=१

५३०-साक्षात्पुरुषोंके नमुनि और वनिके साथ संवाद—
कानकी महिमाका वर्णन ... १२३=३

५३१-साक्षात्पुरुषोंके पान लक्ष्मीका आना तथा दानव-
दंत्योंके उन्धान और पतनका कारण बताना ... १२३=६

५३२-साक्षात्पुरुषोंके देवकी गमत्ववृद्धिका उपदेश
तथा श्रीकृष्णका उद्योगके प्रति नारदजीके
सुणोका वर्णन ... १२३=९

५३३-साक्षात्पुरुषोंके शुकदेवके पूछनेपर उन्हें कालका
स्वरूप तथा सृष्टिकी उत्पत्ति बतलाना ... १२४=०

५३४-साक्षात्पुरुषोंके कर्म, साक्षात्पुरुषोंके दान देनेकी महिमा
तथा ब्राह्मणके कर्तव्यका वर्णन ... १२४=२

५३५-साक्षात्पुरुषोंके ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति, ध्यानके सहायक
योग और सात प्रकारकी धारणाओंका
वर्णन ... १२४=४

५३६-साक्षात्पुरुषोंके प्रयोग, प्राणियोंके तारनम्य, ज्ञानका
साधन तथा उमकी महिमा ... १२४=७

५३७-साक्षात्पुरुषोंके योगमें परमान्तकी प्राप्तिका वर्णन ... १२४=८

५३८-साक्षात्पुरुषोंके कर्म और ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्मचर्य-
आश्रमका वर्णन ... १२५=०

५३९-साक्षात्पुरुषोंके गहन, वानप्रस्थ और गन्धर्व-आश्रमका
वर्णन ... १२५=१

५४०-साक्षात्पुरुषोंके अज्ञानमजान और इनके साधनोंका वर्णन ... १२५=२

५४१-साक्षात्पुरुषोंके उपाय, उमकी महिमा तथा काम-
रूपी वृक्षोंके फलके उपदेश ... १२५=६

५४२-साक्षात्पुरुषोंके सुणोंका वर्णन तथा धर्मका
प्रतिपादन ... १२५=८

५४३-साक्षात्पुरुषोंके धर्मविषयके प्रश्न और भीष्म-
शौर्य इनके उत्तरमें जात्रनि तथा
मुवाधार संवादका संवाद मुनाना ... १२५=९

५४४-साक्षात्पुरुषोंके मुनाधार तथा पशुओंका उपदेश ... १२६=०

५४५-साक्षात्पुरुषोंके ज्ञान अर्जुनधर्मकी प्रमंता
तथा गिरतागीता उपायमान ... १२६=४

- ६०६-अहिमापूर्वक राज्यागमन करनेके विषयमें
द्युमतेसन और मलयवान्का संवाद १२६७
- ६०७-कपिलका स्मरदिग्गमसे निवृत्तिप्रधान धर्म-
की श्रेष्ठताका प्रतिपादन १२६८
- ६०८-ब्रह्मज्ञानमें सभी आश्रमोंका अधिकार बताते
हुए ब्रह्मतत्त्वका निरूपण १२७०
- ६०९-धर्मकी प्रधानता बतलानेके लिये एक
ब्राह्मण और बुण्डधार भेषकी कथा १२७१
- ६१०-पापी, धर्मात्मा, विरक्त और मुक्त होनेके
कारण तथा मोक्षके साधनोंका वर्णन १२७३
- ६११-भूत और इन्द्रियादिके विषयमें नारद
और देवल मुनिका तथा तृणाक्षयके
विषयमें माण्डव्य और जनकका संवाद १२७४
- ६१२-संन्यासीके स्वभाव, आचरण और धर्मोंका
वर्णन १२७५
- ६१३-ब्राह्मी स्थितिका वर्णन करते हुए भीष्मजी-
का वृत्रामुरकी कथा सुनाना १२७६
- ६१४-इन्द्रद्वारा वृत्रामुरके वधका प्रसंग १२७८
- ६१५-दश-यज्ञ-विध्वंस १२८०
- ६१६-दश प्रजापतिका भगवान् शिवकी स्तुति
करना १२८३
- ६१७-ममङ्गका नारदजीमें अपनी शोकहीन स्थिति-
का वर्णन तथा नारदजीका गालव मुनिकी
श्रेयका उपदेश १२८८
- ६१८-अरिष्टनेमिका राजा मगरको मोक्षका उपदेश १२९०
- ६१९-राजा जनकको परागर् मुनिका उपदेश
(परागर्-गीता) १२९२
- ६२०-राजा जनकके भिन्न-भिन्न प्रश्न और परागर्-
जीद्वारा उनके समाधान (परागर्-गीता) १२९६
- ६२१-माध्यगणोंको हृमका उपदेश १२९९
- ६२२-साह्य और योगका अन्तर् बतलाने हुए
योगमार्गका वर्णन १३०१
- ६२३-साह्यका वर्णन १३०३
- ६२४-शर और अक्षरका विषय बतलानेके लिये
करालजनक और वसिष्ठका संवाद १३०४
- ६२५-वसिष्ठजीके द्वारा जीवकी भ्रजताका वर्णन १३०६
- ६२६-आत्मकी प्रकृतिमें भिन्नता तथा योग और
गान्धका मत १३०७
- ६२७-राजकुमार वसुमान्को एक ऋषिका धर्म-
विषयक उपदेश १३१०
- ६२८-याज्ञवल्क्यका राजा जनकको उपदेश-साह्य-
मतके अनुसार सृष्टि, प्रलय और गुणोंका वर्णन १३११
- ६२९-योग तथा मृत्युमूचक चिह्नोंका वर्णन १३१३
- ६३०-याज्ञवल्क्यद्वारा मोक्षधर्मका वर्णन १३१५
- ६३१-व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको उपदेश १३१७
- ६३२-दान, यज्ञ और तप आदि शुभकर्मोंकी
उपयोगिताका वर्णन तथा शुकदेवजीके जन्म-
का वृत्तान्त १३२०
- ६३३-पिताकी आज्ञामें शुकदेवजीका मिथिनामें
जाना और जनकके राजमहलमें उनका
सत्कार होना १३२१
- ६३४-राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा
उनके प्रश्नका समाधान करना १३२३
- ६३५-शुकदेवजीका पिताके पास लौट आना तथा
व्यासजीका अपने शिष्योंको स्वाध्यायकी विधि
और शुकदेवको अनध्यायका कारण बताना १३२५
- ६३६-शुकदेवजीको नारदजीका उपदेश १३२७
- ६३७-नारदजीका शुकदेवको उपदेश और शुकदेवका
सूर्यलोकमें जानेका निरचय १३२९
- ६३८-शुकदेवकी ऊर्ध्वगतिका वर्णन तथा व्यासको
महादेवजीका आश्रयमान देना १३३२
- ६३९-वदरिक्तधर्ममें भगवान् नारायणके द्वारा
नारदजीकी शङ्काका समाधान १३३३
- ६४०-नारदजीका श्वेतद्वीपमें जाना तथा भीष्मका
सुधिष्टिरसे उपरिचरके चरित्रवर्णनके
प्रसंगमें तन्त्रशास्त्रकी उत्पत्ति बतलाना १३३५
- ६४१-राजा उपरिचरके यज्ञमें एकन आदि मुनियोंका
बृहस्पतिसे श्वेतद्वीप एवं भगवान्की
महिमाका वर्णन १३३६
- ६४२-नारदजीका अनेको नामोंके द्वारा भगवान्की
स्तुति करना १३३८
- ६४३-श्वेतद्वीपमें नारदजीको भगवान्का दर्शन
होना और भगवान्का अपने भविष्य
अवतारोंके कार्योंकी सूचना देना १३३९
- ६४४-श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने नामोंकी व्याख्या
सुनाना १३४०
- ६४५-देवर्षि नारद और नर-नारायणकी वातचीत
तथा सौतिके द्वारा भगवान्की महिमाका वर्णन १३४३
- ६४६-हृयश्रीव-अवतार, नारायणकी महिमा तथा
भक्ति-धर्मकी परम्पराका वर्णन १३४५

५६४-प्रवल शत्रुसे वचनेका उपाय बतानेके लिये सेमलवृक्ष और वायुका प्रसंग ...	११८२	५८५-गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचारका निरूपण ...	१२२२
५६५-लोभमें पाप, शिष्ट पुरुषोंके लक्षण, अज्ञानके दोष तथा दमकी प्रशंसा ...	११८४	५८६-सब प्रकारके दोषोंसे छूटनेके लिये ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्मचर्यका उपदेश ...	१२२४
५६६-तप और सत्यकी महिमा, क्रोध-काम आदि दोषोंका वर्णन तथा नृशंस पुरुषके लक्षण ...	११८६	५८७-मुक्तिके लिये प्रयत्न करनेका उपदेश ...	१२२६
५६७-पाप और उनके प्रायश्चित्त ...	११८८	५८८-महर्षि पञ्चशिखका राजा जनकको उपदेश ...	१२२८
५६८-धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें विदुर तथा पाण्डवोंके पृथक्-पृथक् विचार ...	११९०	५८९-दमकी महिमा तथा व्रत और तपका वर्णन, प्रह्लादद्वारा इन्द्रको उपदेश ...	१२३१
५६९-मित्र बनाने और न बनानेयोग्य पुरुषोंके लक्षण तथा कृतघ्न गौतमीकी कथा ...	११९१	५९०-इन्द्रका नमुचि और बलिके साथ संवाद— कालकी महिमाका वर्णन ...	१२३३
५७०-शोककुल चित्तकी शान्तिके लिये राजा सेनजित् और ब्राह्मणके संवादका वर्णन ...	११९६	५९१-इन्द्रके पास लक्ष्मीका आना तथा दानव- दैत्योंके उत्थान और पतनका कारण बताना ...	१२३६
५७१-कल्याणकामीके कर्तव्यके विषयमें पिता- पुत्रका संवाद ...	११९७	५९२-जैगीपव्यका देवलको समत्ववृद्धिका उपदेश तथा श्रीकृष्णका उग्रसेनके प्रति नारदजीके गुणोंका वर्णन ...	१२३९
५७२-सुख-दुःखका विवेचन और न्यायकी महिमा ...	११९९	५९३-व्यासजीका शुकदेवके पृष्ठनेपर उन्हें कालका स्वरूप तथा सृष्टिकी उत्पत्ति बतलाना ...	१२४०
५७३-नृष्णात्यागके विषयमें मङ्गिका दृष्टान्त तथा विदेहगज जनक और मुनिवर बोध्यकी उक्तिर्या ...	१२००	५९४-प्रलयका क्रम, ब्राह्मणको दान देनेकी महिमा तथा ब्राह्मणके कर्तव्यका वर्णन ...	१२४२
५७४-संतजनोंके आचरणके विषयमें प्रह्लाद और अवधूत ब्राह्मणका संवाद ...	१२०१	५९५-ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति, ध्यानके सहायक योग और सात प्रकारकी धारणाओंका वर्णन ...	१२४४
५७५-मनुष्यको सद्वृद्धिका आश्रय लेना चाहिये— इस विषयमें काश्यप ब्राह्मण और इन्द्रका संवाद ...	१२०२	५९६-वृद्धिकी प्रशंसा, प्राणियोंके तारतम्य, ज्ञानका साधन तथा उसकी महिमा ...	१२४७
५७६-संसार और शरीरोंके मूलतत्त्वोंका वर्णन ...	१२०४	५९७-योगसे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन ...	१२४८
५७७-जीवकी नित्यता और सत्ताका वर्णन; चारों वर्णोंकी उत्पत्ति तथा उनके कर्म ...	१२०६	५९८-कर्म और ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्मचर्य- आश्रमका वर्णन ...	१२५०
५७८-सत्यकी महिमा, असत्यके दोष, दान आदिके फल और आश्रमधर्मोंका वर्णन ...	१२०८	५९९-गृहस्थ, वानप्रस्थ और मंन्याम-आश्रमका वर्णन ...	१२५१
५७९-आचारणकी विधि और अध्यात्मज्ञानका वर्णन ...	१२१०	६००-अध्यात्मज्ञान और उमके साधनोंका वर्णन ...	१२५५
५८०-ध्यानयोगका वर्णन और जपकी महिमा बतानेके लिये एक जापक ब्राह्मणकी कथा ...	१२१२	६०१-ब्रह्मज्ञानके उपाय, उमकी महिमा तथा काम- रूपी वृक्षको काटनेका उपदेश ...	१२५६
५८१-मनु और बृहस्पतिकी संवाद—मनुके द्वारा ज्ञानयोग आदिके फल तथा परमात्मतत्त्वका वर्णन ...	१२१६	६०२-पञ्चभूतोंके गुणोंका वर्णन तथा धर्मका प्रतिपादन ...	१२५८
५८२-आत्माकी दुर्विज्ञेयता ...	१२१८	६०३-युधिष्ठिरका धर्मविषयक प्रश्न और भीष्म- जीका उसके उत्तरमें जाजलि तथा तुलाधार वैश्यक संवाद मुनाना ...	१२५९
५८३-आत्मदर्शनका उपाय ...	१२१९	६०४-जाजलिको तुलाधार तथा पक्षियोंका उपदेश ...	१२६२
५८४-भगवान विष्णुसे विश्वकी उत्पत्ति तथा वराह अवतारका वर्णन ...	१२२०	६०५-राजा विचख्नुके द्वारा अहिंसाधर्मकी प्रशंसा तथा चिरकारीका उपाख्यान ...	१२६४

६०६-अहिंसापूर्वक राज्यशासन करनेके विषयमें द्युमत्सेन और मत्स्यवान्का सवाद	१२६७	६२८-याज्ञवल्क्यका राजा प्रनवको उपदेश-माय्य- मनके अनुसार मृष्टि, प्रलय और गुणोंका वर्णन	१३११
६०७-कपिलवा म्भुमारस्मिसे निवृत्तिप्रधान धर्म- की श्रेष्ठताका प्रतिपादन	१२६८	६२९-योग तथा भुक्त्युसूचक चिह्नोंका वर्णन	१३१३
६०८-ब्रह्मज्ञानमें सभी आश्रमोंका अधिकार बताते हुए ब्रह्मसत्त्वका निरूपण	१२७०	६३०-याज्ञवल्क्यद्वारा मोक्षधर्मका वर्णन	१३१५
६०९-धर्मकी प्रधानता बतलानेके लिये एक ब्राह्मण और कुण्डधार भेदकी कथा	१२७१	६३१-व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको उपदेश	१३१७
६१०-पापी, धर्मान्सा, विग्न और मुक्त होनेके कारण तथा मोक्षके साधनोंका वर्णन	१२७३	६३२-दान, यज्ञ और तप आदि शुभकर्मोंकी उपयोगिताका वर्णन तथा शुकदेवजीके जन्म- का वृत्तान्त	१३२०
६११-भूत और इन्द्रियादिके विषयमें नारद और देवल मुनिका तथा तृष्णाक्षयके विषयमें माण्डव्य और जनकका सवाद	१२७४	६३३-पिताकी आज्ञामें शुकदेवजीका मिथिलामें जाना और जनकके राजमहलमें उनका मत्कार होना	१३२१
६१२-मन्यामीके स्वभाव, आचरण और धर्मोंका वर्णन	१२७५	६३४-राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा उनके प्रदत्तका समाधान करना	१३२३
६१३-श्राद्धी स्थितिका वर्णन करते हुए भीष्मजी- का धृत्रासुरकी कथा सुनाना	१२७६	६३५-शुकदेवजीका पिताके पास लौट आना तथा व्यासजीका अपने शिष्योंको स्वाध्यायकी विधि और शुकदेवको अनध्यायका कारण बताना	१३२५
६१४-इन्द्रद्वारा धृत्रासुरके बधका प्रसंग	१२७८	६३६-शुकदेवजीको नारदजीका उपदेश	१३२७
६१५-दश-यज्ञ-विध्वंस	१२८०	६३७-नारदजीका शुकदेवको उपदेश और शुकदेवका सूर्यलोकमें जानेका निश्चय	१३२९
६१६-दश प्रजापतिको भगवान् गिवकी स्तुति करना	१२८३	६३८-शुकदेवकी ऊर्ध्वगतिका वर्णन तथा व्यासको महादेवजीका आस्वाशन देना	१३३२
६१७-समझका नारदजीमें अपनी शोकहीन स्थिति- का वर्णन तथा नारदजीका गालव मुनिको श्रेयका उपदेश	१२८८	६३९-वदरिकाश्रममें भगवान् नारायणके द्वारा नारदजीकी शङ्काका समाधान	१३३३
६१८-अरिष्टनेमिका राजा मगरको मोक्षका उपदेश	१२९०	६४०-नारदजीका श्वेतद्वीपमें जाना तथा भीष्मका युधिष्ठिरमें उपरिचरके चरित्रवर्णनके प्रसंगमें तन्त्रशास्त्रकी उत्पत्ति बतलाना	१३३५
६१९-राजा जनकको पराशर मुनिका उपदेश (पराशर-गीता)	१२९२	६४१-राजा उपरिचरके यज्ञमें एकन आदि मुनियोंका बृहस्पतिसे श्वेतद्वीप एवं भगवान्की महिमाका वर्णन	१३३६
६२०-राजा जनकके भिन्न-भिन्न प्रदत्त और पराशर- जीद्वारा उनके मनाधान (पराशर-गीता)	१२९६	६४२-नारदजीका अनेकों नामोंके द्वारा भगवान्की स्तुति करना	१३३८
६२१-माध्यगणोंको हंसका उपदेश	१२९९	६४३-श्वेतद्वीपमें नारदजीको भगवान्का दर्शन होना और भगवान्का अपने भविष्य अवतारोंके कार्योंकी सूचना देना	१३३९
६२२-साय्य और दोगका अन्तर बतलाने हुए योगमार्गका वर्णन	१३०१	६४४-श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने नामोंकी व्याख्या सुनाना	१३४०
६२३-साय्यका वर्णन	१३०३	६४५-देवपि नारद और नर-नारायणकी बातचीत तथा सौतिके द्वारा भगवान्की महिमाका वर्णन	१३४३
६२४-शर और अश्रुका विषय बतलानेके लिये कालजनक और वसिष्ठका सवाद	१३०४	६४६-हृद्यश्रीव-अवतार, नारायणकी महिमा तथा भक्ति-धर्मकी परम्पराका वर्णन	१३४५
६२५-वसिष्ठजीके द्वारा जीवकी ब्रह्मताका वर्णन	१३०६		
६२६-आत्माकी प्रकृतिमें भिन्नता तथा योग और माय्यका मन	१३०७		
६२७-राजसुमार वसुमान्को एक ऋषिका धर्म- विषयक उपदेश	१३१०		

६४७-अतिथिके कहनेसे धर्मारण्यका नामराजके
यहाँ जाना और सूर्यमण्डलसे उनके लौटनेपर
उनसे उच्छ्वन्निकी महिमा सुनना ... १३४८

अनुशासनपर्व

६४८-युधिष्ठिरको समझानेके लिये भीष्मजीके द्वारा
गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और
कालके संवादका वर्णन ... १३५३

६४९-अतिथि-सत्कारके विषयमें मुद्रदर्शनका उपाख्यान १३५५

६५०-विश्वामित्रके जन्मकी कथा और उनके
पुत्रोंके नाम ... १३५७

६५१-स्वामिभक्त एव दयालु पुरुषकी श्रेष्ठता
वतलाते हुए इन्द्र और तोतेके संवादका उल्लेख १३५९

६५२-भाग्यकी अपेक्षा पुरुषार्थकी श्रेष्ठता ... १३६०

६५३-कर्मकेफलका वर्णन तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी प्रशंसा १३६१

६५४-गोदड और वानरकी कथा—ब्राह्मणकी प्रतिज्ञा
करके न देने और उसका धन लेनेसे दोष १३६३

६५५-शूद्रको विशेष उपदेश देनेसे अनर्थकी प्राप्ति—
एक शूद्र और मुनिकी कथा ... १३६३

६५६-युधिष्ठिरके विविध प्रश्नोंका उत्तर तथा
दानके लिये उत्तम पात्रका लक्षण ... १३६५

६५७-त्याग्य अन्न, श्राद्धमें निमन्त्रण देनेयोग्य
ब्राह्मण, दानपात्र तथा नरक एवं स्वर्ग
देनेवाले कर्मोंका विवेचन ... १३६७

६५८-ब्रह्महत्याके समान पापों तथा विविध
तीर्थोंका वर्णन ... १३७०

६५९-गङ्गाजीके माहात्म्यका वर्णन ... १३७३

६६०-राजा वीतह्वयकी ब्राह्मणत्व प्राप्ति होनेकी कथा १३७६

६६१-नारदजीका भगवान् श्रीकृष्णको पूज्य पुरुषके
लक्षण वताना और उगीनरद्वारा गरपागत
कपोतकी रक्षा ... १३७८

६६२-ब्राह्मणोंके महत्त्वका वर्णन ... १३८०

६६३-दानपात्र पुरुषोंकी परीक्षा और स्त्री-रक्षाके
विषयमें देवदामा तथा विपुलकी कथा ... १३८२

६६४-देवदामाका विपुलको उसके दुरावकी याद
दिलाना तथा उसको साथ ले पत्नीसहित
स्वर्गमें जाना ... १३८५

६६५-कन्याके विवाहके सम्बन्धमें विचार ... १३८७

६६६-वर्णसंकरोंकी उत्पत्ति तथा कृतक पुत्रका वर्णन १३८९

६६७-गौओंके माहात्म्य-वर्णनके प्रसंगमें महर्षि
च्यवन और नहुषके संवादकी कथा, ... १३९१

६६८-राजा कुशिक और च्यवन मुनिका उपाख्यान—
मुनिद्वारा राजाके धैर्यकी परीक्षा ... १३९४

६६९-च्यवनका कुशिकको स्वर्गीय दृश्य दिखाना,
उनके घरमें रहनेका प्रयोजन वतलाना और
उनके वंशको ब्राह्मणत्व-प्राप्तिका वरदान देना १३९७

६७०-नाना प्रकारके शुभ कर्मोंका और जनाशय
वनाने तथा वगीचे लगानेका फल ... १३९९

६७१-भीष्मद्वारा उत्तम दान और उत्तम ब्राह्मणोंकी
प्रशंसा करते हुए उनकी आराधनाका उपदेश १४०१

६७२-राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राह्मण आदि
प्रजाकी रक्षाका उपदेश ... १४०३

६७३-भूमिदानका महत्त्व ... १४०४

६७४-अन्न, सुवर्ण और जल आदि दान करनेका
माहात्म्य ... १४०६

६७५-नाना प्रकारके दानोंका वर्णन तथा ब्राह्मणका
धन लेनेसे होनेवाले अनिष्टके सम्बन्धमें राजा
नृगकी कथा ... १४०९

६७६-ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक, गोदान और स्वर्ण-
दक्षिणाकी महिमाका तथा गो-चोरीके पापका
वर्णन ... १४१२

६७७-व्रत, नियम और दम आदिकी प्रशंसा तथा
गोदानकी विधि ... १४१४

६७८-गोदानके फल, कपिला गौकी उत्पत्ति और
गोमाहात्म्यके विषयमें वसिष्ठ-सीदास-
संवादका वर्णन ... १४१६

६७९-व्यासजीका शुकदेवसे गोदानकी महिमाका
वर्णन तथा भीष्मजीका गौ और लक्ष्मीका
संवाद सुनाना ... १४१९

६८०-ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गौओंका
उत्कर्ष वताना तथा सुवर्णकी उत्पत्ति और
उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ और
परशुरामका संवाद ... १४२१

६८१-भिन्न-भिन्न तिथियों और नक्षत्रोंमें श्राद्ध
करनेका तथा उसमें तिल आदि देनेका फल १४२५

६८२-श्राद्धमें ब्राह्मणोंकी परीक्षा—पंक्तिदूषक और
पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन ... १४२६

६८३-श्राद्धके विषयमें महर्षि निमिकी अत्रिका
उपदेश तथा अन्य ज्ञातव्य बातें ... १४२८

- ६८४-उपवास और ब्रह्मचर्य आदिके लक्षण तथा प्रतिग्रहके दोष बतानेके लिये राजा वृषादिभि और सप्तपिप्योकी कथा १४३०
- ६८५-ब्रह्मसर तीर्थमें अगस्त्यजीके कमलकी चोरी होनेपर ब्रह्मपिप्यो और राजपिप्योकी धर्मो-पदेशपूर्ण शपथ ... १४३५
- ६८६-छत्र और उपानह दान करनेके विषयमें भूम्य और जमदग्नि मुनिका संवाद ... १४३८
- ६८७-गृहस्य-धर्मके विषयमें पृथ्वी और श्रीकृष्णका संवाद तथा पुष्प, धूप और दीपके दान एवं देवता आदिकी वलि देनेका माहात्म्य बतानेके लिये वलि-शुक्र-संवादका उल्लेख १४३९
- ६८८-जनशान-व्रतका माहात्म्य ... १४४२
- ६८९-आयुको बढ़ाने और घटानेवाले शुभाशुभ कर्मोंका वर्णन ... १४४३
- ६९०-भाद्रयोके पारस्परिक बतवि और उपवासके फलका वर्णन ... १४४८
- ६९१-दरिद्रोंके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास व्रतका उपदेश और मानस तथा पाण्डिव तीर्थकी महत्ता १४५०
- ६९२-वृहस्पतिकी युधिष्ठिरसे प्राणियोंके जन्मका प्रकार और पापोंके कारण तिर्यक् योनियोंमें जन्म लेनेका क्रम बतलाना १४५१
- ६९३-वृहस्पतिकी युधिष्ठिरको अन्न-दान और अहिंसा-धर्मकी महिमा बताना ... १४५५
- ६९४-हिंसा और मांस-भक्षणकी निन्दा तथा मांस न खानेकी प्रशंसा १४५६
- ६९५-व्यासजीकी एक कौंडेपर कृपा १४५९
- ६९६-कौंडेका क्रमदा ब्राह्मण-योनिमें जन्म लेकर ब्रह्मलोक प्राप्त करना .. १४६०
- ६९७-व्यास-मंत्रेय-संवादमें दान, तप आदिकी प्रशंसा ... ११६१
- ६९८-शाण्डिली और मुमनाका संवाद—पतिव्रत-धर्मका वर्णन .. १४६३
- ६९९-साम-गुणकी प्रशंसा—राक्षस और ब्राह्मणका संवाद ... १४६४
- ७००-श्राद्धके विषयमें देवदूत और पितरोंका तथा धर्मके विषयमें इन्द्र और वृहस्पतिकी संवाद १४६६
- ७०१-विष्णु ब्रह्मा, अग्नि, लक्ष्मी तथा अश्विन आदि ऋषियोंके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन १४६८
- ७०२-अरुण्यती, सूर्य, प्रमथ, महेश्वर, सन्ध और विष्णुके बताये हुए विशेष धर्मका वर्णन १४६९
- ७०३-ब्राह्मण और त्याग्यज्ञ मनुष्योंका वर्णन तथा अयोग्य दान और अन्न ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त ... १४७१
- ७०४-दृष्टान्तपूर्वक दानकी श्रेष्ठता और पाँच प्रकारके दानोंका वर्णन .. १४७२
- ७०५-तपस्या करते हुए श्रीकृष्णके पाम ऋषियोंका आना, उनका प्रभाव देखना और नारदजीका शिव-पार्वतीके धर्मविषयक संवादका वर्णन करना ... १४७३
- ७०६-वानप्रस्थ-धर्मका वर्णन ... १४७८
- ७०७-ऊँच और नीच वर्णकी प्राप्ति करानेवाले तथा बन्धन, मुक्ति एवं स्वर्ग देनेवाले शुभाशुभ कर्मोंका वर्णन ... १४७९
- ७०८-स्वर्ग और नरककी प्राप्ति करानेवाले कर्मोंका वर्णन ... १४८१
- ७०९-पार्वतीजीके द्वारा स्त्री-धर्मका वर्णन ... १४८२
- ७१०-भगवान् श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन .. १४८४
- ७११-विष्णुसहस्रनाम १४८७
- ७१२-अपने योग्य मन्त्र और सचेरे-शाम कीर्तन करने योग्य देवता आदिके मङ्गलमय नामोंका वर्णन और गायत्री-अपका फल १५०१
- ७१३-ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन तथा कार्तवीर्य और वायुदेवताका संवाद १५०३
- ७१४-वायुदेवताके द्वारा कश्यप, अगस्त्य, वसिष्ठ, अत्रि और च्यवन मुनिकी महिमाका वर्णन १५०५
- ७१५-भीष्मजीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन .. १५०७
- ७१६-श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मणोंकी महिमा तथा भगवान् शंकरके माहात्म्यका वर्णन .. १५०९
- ७१७-धर्मके विषयमें आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, धर्म-अधर्मके फल, सज्जन-दुर्जनके लक्षण और शिष्टाचारका वर्णन १५१०
- ७१८-भीष्मका शुभाशुभ कर्मोंकी सुख-दुःखकी प्राप्तिका कारण बतलाते हुए धर्मके अनुष्ठान-पर जोर देना १५१२
- ७१९-भीष्मजीका देवता, ऋषि, पर्वन और नदी आदिके नाम बतलाकर उनके स्मरणसे धर्म-

की प्राप्ति वतलाना तथा भीष्मजीकी आज्ञासे युधिष्ठिरका परिवारसहित हस्तिनापुरमें जाना	१५१३	अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका वर्णन	१५३४
७२०-भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके पास आना और भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देहत्यागकी अनुमति लेना	१५१५	७३१-मोक्ष-प्राप्तिके उपायका वर्णन	१५३५
७२१-भीष्मजीका प्राण-त्याग और धृतराष्ट्र आदिके द्वारा उनका दाह-संस्कार । कीरवोंका गङ्गाके जलसे भीष्मको जलाञ्जलि देना, गङ्गाजीका प्रकट होकर पुत्रके लिये शोक करना और श्रीकृष्णका उन्हें समझाना	१५१७	७३२-ब्राह्मणका अपनी स्त्रीसे इन्द्रिय-यज्ञ तथा मन-इन्द्रिय-संवादका वर्णन	१५३७
आश्वमेधिकपर्व		७३३-प्राण-अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका सबकी श्रेष्ठता वतलाना	१५३८
७२२-युधिष्ठिरका शोक करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना और व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाते हुए राजा मरुत्तकी कथा सुनाना	१५१९	७३४-अन्त्येष्टिमीकी प्रधानता और ब्रह्मरूपी वनका वर्णन	१५३९
७२३-इन्द्रकी प्रेरणासे बृहस्पतिका मनुष्यके यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा करना, मरुत्तका नारदजीकी आज्ञासे संवर्तके पास जाना और उन्हें यज्ञके लिये राजी करना	१५२१	७३५-आत्माकी निर्लिप्तता, परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार और पितामहोंके समझानेसे परशुरामजीका तपस्याके लिये जाना	१५४१
७२४-संवर्तका मरुत्तको सुवर्णकी प्राप्तिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुति का उपदेश करना, मरुत्तकी सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना और उनकी प्रेरणासे इन्द्रका मरुत्तके पास अग्निको भेजना	१५२४	७३६-राजा अम्बरीषकी गाथी हुई गाथा और ब्राह्मण-जनक-संवादका वर्णन	१५४३
७२५-इन्द्रका गन्धर्वराजको भेजकर मरुत्तको भय दिखाना और संवर्तका मन्त्रबलसे सब देवताओंको बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण करना	१५२७	७३७-ब्राह्मणका अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय देना तथा श्रीकृष्णका अर्जुनसे मोक्ष-धर्मके विषयमें गुरु और शिष्यका संवाद सुनाना	१५४५
७२६-भगवान् श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको समझाना, ऋषियोंका अन्तर्धान होना और भीष्म आदिका श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हस्तिना-पुरमें जाना	१५२८	७३८-ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुणके कार्योंका वर्णन	१५४७
७२७-श्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना	१५३०	७३९-सत्त्व आदि गुण, प्रकृतिके नाम तथा परमात्मतत्त्वके ज्ञानकी महिमा	१५४९
७२८-अर्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना और श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्ध महर्षि और काश्यपका संवाद	१५३१	७४०-अहंकारसे पञ्चमहाभूतों और इन्द्रियोंकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवतका वर्णन तथा निवृत्तिमार्गका उपदेश	१५५०
७२९-जीवकी मृत्यु और उसकी त्रिविध गतिकी वर्णन	१५३२	७४१-चराचर प्राणियोंके अधिपतियों, धर्म आदिके लक्षणों और विषयोंकी अनुभूतिके साधनोंका वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकी विलक्षणता	१५५१
७३०-जीवके गर्भ-प्रवेश, आचार-धर्म, कर्म-फलकी		७४२-सब पदार्थोंके आदि-अन्त, ज्ञानकी नित्यता; देहरूपी कालचक्र तथा गृहस्थके धर्मका वर्णन	१५५३
		७४३-ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीके धर्म-का वर्णन	१५५४
		७४४-परमात्माकी प्राप्तिके उपायोंका वर्णन	१५५६
		७४५-सत्त्व और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानकी प्रशंसा, पञ्चभूतोंके गुण और आत्माकी श्रेष्ठताका वर्णन	१५५७
		७४६-तपस्याका प्रभाव, आत्माका स्वरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार	१५५८
		७४७-श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिरकी आज्ञा ले सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्थान करना	१५६०

७४८—मार्गमें श्रीकृष्णसे कौरवोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तङ्कमुनिका कुपित होना और श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करके अपने अध्यात्मज्ञानका वर्णन करना . . . १५६१	७६२—अर्जुन और बभ्रुवाहनका युद्ध तथा अर्जुनकी मृत्यु . . . १५८३
७४९—श्रीकृष्णका उत्तङ्कमुनिको विश्वरूपका दर्शन कराना और मद्देशमें जन प्राप्त होनेका वरदान देना . . . १५६३	७६३—चित्राङ्गदाका विलाप, बभ्रुवाहनका शोक, उलूपीके प्रयत्नमें अर्जुनका पुनः जीवित होना तथा उन सबकी वानचीन . . . १५८४
७५०—उत्तङ्ककी गुरु-भक्तिका वर्णन—गुप्तलकी आज्ञासे उत्तङ्कका सौदासके पास जाकर उनकी रानीके कुण्डल माँगना . . . १५६४	७६४—अर्जुनका मगध, चेदि, काशी, कोमल आदि देशोंके राजाओंको परास्त करते हुए गान्धार देशमें पहुँचना . . . १५८७
७५१—कुण्डल लेकर उत्तङ्कका लौटना. मार्गमें उन कुण्डलोंका अपहरण होना और अग्निदेवकी कृपासे फिर उन्हें पाकर गुरुपत्नीको देना . . . १५६७	७६५—गान्धारराजको पराम्प्य करके अर्जुनका लौटना, यज्ञभूमिकी तैयारी और नाना देशोंसे आये हुए राजाओंका यज्ञकी मजावट देखना . . . १५८८
७५२—भगवान् श्रीकृष्णका द्वारकामें जाकर सबमें मिलना और वसुदेवजीके पूछनेपर महाभारत-युद्धका वृत्तान्त सुनाना . . . १५७०	७६६—श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे अर्जुनका मदेग कहना. अर्जुनका हस्तिनापुरमें आना तथा उलूपी और चित्राङ्गदाके साथ बभ्रुवाहनका आगमन . . . १५९०
७५३—श्रीकृष्णका वसुदेवजीकी अभिमन्यु-वधका हाल सुनाना और व्यामजीका उत्तरा तथा अर्जुनको समझाकर युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञ करनेकी आज्ञा देना . . . १५७१	७६७—बभ्रुवाहन आदिका सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञका आरम्भ . . . १५९१
७५४—भाइयोंके साथ युधिष्ठिरका हिमालयपर जाना और वहाँमें सुवर्णराशि लेकर लौटना . . . १५७३	७६८—युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना और राजाओंको भेट देकर विदा करना . . . १५९२
७५५—श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें आना और उत्तराके मृत बालकको जिलानेके लिये कुन्ती आदिकी उनसे प्रार्थना . . . १५७५	७६९—युधिष्ठिरके यज्ञमें एक नेबलेका उच्छ्वस्ति-घागी ब्राह्मणके सेगभर सत्तु दानकी महिमा बनलाना . . . १५९३
७५६—उत्तराकी त्रिलापपूर्ण प्रार्थना और श्रीकृष्णका परीक्षितको जीवित कर देना . . . १५७६	७७०—महृषि अगस्त्यके यज्ञकी कथा . . . १५९७
७५७—श्रीकृष्णद्वारा परीक्षितका नामकरण, पाण्डवोंका हस्तिनापुरमें पहुँचना तथा व्यास और श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको यज्ञ आरम्भ करनेकी आज्ञा देना . . . १५७७	७७१—युधिष्ठिरका वैष्णव-धर्मद्विषयक प्रश्न और भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा धर्म तथा अपनी महिमाका वर्णन . . . १५९९
७५८—व्यासजीकी आज्ञासे अश्वमेधयज्ञके लिये छोड़े हुए अश्वकी रक्षाके लिये अर्जुनकी नियुक्ति और घोड़ेके पीछे उनका सेनासहित जाना . . . १५७८	७७२—चारों वर्गोंके कर्म और उनके फलोंका वर्णन तथा धर्मकी वृद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय . . . १६००
७५९—अर्जुनके द्वारा त्रिगतोंकी पराजय . . . १५८०	७७३—निरर्थक जन्म, दान और जीवनका वर्णन, सात्त्विक आदि दानोंका मक्षण, दानका योग्य पात्र और ब्राह्मणकी महिमा . . . १६०१
७६०—प्राग्व्योनियपुत्रमें बृहदत्तके साथ अर्जुनका युद्ध और बृहदत्तकी पराजय . . . १५८१	७७४—वीज और योनिकी गृद्धि तथा गायत्री-जप और ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन . . . १६०४
७६१—अर्जुनका संन्यव वीरोंके साथ युद्ध और दृ शनाके प्रयत्नमें उनकी समाप्ति . . . १५८२	७७५—यमलोकके मार्गका कष्ट और उससे बचनेके उपाय . . . १६०५
	७७६—जप-दान, अन्न-दान और अनिय-सत्कारका माहात्म्य . . . १६०८
	७७७—भूमि-दान तिल-दान और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा . . . १६११
	७७८—विविध प्रकारके दानोंकी महिमा . . . १६१२

३३१-गच्छमहायज्ञ, विधिवत् स्नान और उसके अङ्गभूत कर्म, भगवान्‌के प्रिय पुष्प तथा भगवद्भक्तोंका वर्णन	१६१४	लेते हुए धेमा माँगना और युधिष्ठिरको उनके हाथों सौपना	१६४
३८०-कपिला गौका माहात्म्य और उसके दस भेद	१६१७	७९५-साम्ब नामक ब्राह्मणका प्रजाकी ओरसे धृतराष्ट्रको उत्तर देना	१६४
३८१-कपिला गौका माहात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तथा नरक और स्वर्गमें ले जानेवाले पाप और पुण्योंका वर्णन	१६१९	७९६-धृतराष्ट्रका युधिष्ठिरसे घन लेकर उमसे भोग्य आदिका श्राद्ध करना	१६५
३८२-धर्म और अशुचिके लक्षण, मंत्र्यासी और अतिथिके सत्कारका उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्न-दानकी प्रशंसा	१६२३	७९७-धृतराष्ट्र और गान्धारीका कुन्ती आदिके साथ वन-गमन और कुन्तीका युधिष्ठिर आदिको समझाकर लौटाना	१६५
३८३-भोजनकी विधि, गौओंको घास डालनेका विधान और माहात्म्य तथा ब्राह्मणके लिये तिल और गन्ना पेरनेका निषेध	१६२५	७९८-गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिका गङ्गातटपर विश्राम करते हुए कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर घोर तपस्या करना	१६५
३८४-आपद्धर्म, श्रेष्ठ और निन्द्य ब्राह्मण, श्राद्धका उत्तम काल और मानव-धर्म-सारका वर्णन	१६२६	७९९-नारदजीका धृतराष्ट्रसे तपस्याका महत्त्व बतलाना और पाण्डवोंका धृतराष्ट्रके पास जानेकी तैयारी करना	१६५
३८५-अग्निके स्वरूप, अग्निहोत्रकी विधि तथा उसके माहात्म्यका वर्णन	१६२८	८००-पाण्डवोंका परिवारमहित कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर धृतराष्ट्र आदिका दर्शन करना तथा मञ्जयका ऋषियोंसे उनका परिचय देना	१६५
३८६-चान्द्रायण-व्रतकी विधि, उसके करनेके निमित्त तथा महिमाका वर्णन	१६३१	८०१-धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा विदुरजीका युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश	१६५
३८७-सर्वहितकारी धर्मका वर्णन, द्वादशी-व्रतका माहात्म्य तथा युधिष्ठिरके द्वारा भगवान्‌की स्तुति	१६३२	८०२-युधिष्ठिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना और महर्षि व्यासका धृतराष्ट्रको सान्त्वना देना	१६६०
३८८-विषुव योग और ग्रहण आदिमें दानकी महिमा, पीपलका महत्त्व, तीर्थभूत गुणोंकी प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित्त	१६३४	८०३-गान्धारी और कुन्तीका व्यासजीसे मरे हुए पुत्रोंके दर्शन करानेका अनुरोध	१६६१
३८९-उत्तम और अधम ब्राह्मणोंके लक्षण, भक्त, गौ, ब्राह्मण और पीपलकी महिमा तथा ब्राह्मणत्वसे गिरानेवाले कर्म	१६३६	८०४-धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा व्यासजीका मरे हुए वीरोंको प्रकट करके उन्हें उनके सम्बन्धियोंसे मिलाना	१६६३
३९०-भगवान्‌के उपदेशका उपसंहार और उनका द्वारकागमन	१६३७	८०५-जनमेजयको परीक्षितके दर्शन और युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरको लौटना	१६६५

आश्रमवासिकपर्व

७९१-कुन्ती आदि स्त्रियोंका तथा भाइयोंसहित राजा युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र और गान्धारीके अनुकूल बर्ताव	१६४०	मौसलपर्व	
---	------	----------	--

७९२-गान्धारीसहित धृतराष्ट्रकी वनमें जानेके लिये तैयारी और युधिष्ठिरका शोक	१६४२	८०७-युधिष्ठिरका अपशकुन देखना तथा द्वारकामें उत्पात देख श्रीकृष्णका यादवोंकी तीर्थयात्राके लिये आज्ञा देना	१६६९
७९३-व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाना और धृतराष्ट्रका उन्हें राजनीतिकी शिक्षा देना	१६४४	८०८-यदुवंशियोंका संहार	१६७१
७९४-धृतराष्ट्रका प्रजावर्गसे वन जानेकी अनुमति		८०९-वलरामजी और भगवान् श्रीकृष्णका परमधाम-गमन	१६७३

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
८१०—द्वारकामें आकर अर्जुनका वसुदेवसे संवाद तया वसुदेवजीका निधन ...	१६७३	८१६—इन्द्र और धर्मका युधिष्ठिरको सार्वभवा देना तया युधिष्ठिरका शरीर त्यागकर दिव्य- लोकको जाना ...	१६८५
८११—अर्जुन और व्यामजीकी बातचीत ...	१६७६	८१७—युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण आदिके दर्शन करना, भीष्म आदिका अपने मूल- स्वरूपमें मिलना और महाभारतका उपसंहार तथा माहात्म्य ...	१६८६
महाप्रास्थानिकपर्व		महाभारत-श्रवण-विधि	
८१२—द्रौपदीमहित पाण्डवोंका महाप्रस्थान ...	१६७८	८१८—माहात्म्य, कथा सुनने की विधि और उसका फल	१६९०
८१३—मार्गमें द्रौपदी तथा सहदेव आदि चार पाण्डवोंका गिरना ...	१६७९		
८१४—युधिष्ठिरका इन्द्र और धर्मके माय वार्तालाप तथा सदेह स्वर्ग-गमन ...	१६८०		
स्वर्गारोहणपर्व			
८१५—स्वर्गमें नारद और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा युधिष्ठिरको नरकका दर्शन ...	१६८३		

चित्र-सूची

रंगीन चित्र १ श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुनकी सर्पमुख बाणसे रक्षा
रेखाचित्र

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
कर्णपर्व			
६७०—कर्णका सेनापतिके पदपर अभिषेक	८६५	६८२—राजा शल्यद्वारा कर्णका उपहास	८८६
६७१—भीमसेनके द्वारा क्षेमधूर्तिका वध	८६६	६८३—शल्यकी बातोंमें कुपित हुए कर्णका उन्हें मारनेकी धमकी देना ..	८८७
६७२—सात्यकिद्वारा अनुविन्दका वध	८६७	६८४—हर्मोके सामने कौएका डींग हाँकना	८८८
६७३—प्रतिबिम्बद्वारा राजा चित्रका वध	८६८	६८५—समुद्रमें डूबते हुए कौएका हृमकी रागण जाना	८८९
६७४—अर्जुनके बाणसे कटे हुए दण्डके मस्तकका हाथीपरसे जमीनपर गिरना	८७०	६८६—होमधेनुका बछड़ा मारनेके अपराधमें एक ब्राह्मणद्वारा कर्णको शाप ..	८९१
६७५—अर्जुनद्वारा सशप्तकोंकी सेनाका सहार	८७१	६८७—कौरव-सेनाके मृतानेपर कर्णको उपस्थित देख युधिष्ठिरका अर्जुनको आदेश ..	८९३
६७६—अश्वत्थामाके द्वारा राजा पाण्डवका वध	८७२	६८८—भीमसेनके द्वारा कर्णपुत्र भानुमेनका वध	८९५
६७७—स्नेच्छ योद्धाओंके हाथियोंद्वारा पाण्डव- सैनिकोंका सहार	८७३	६८९—राजा युधिष्ठिरका पलायन और कर्णद्वारा उनका पीछा किया जाना ..	८९७
६७८—अर्जुनद्वारा मित्रसेनका मस्तक काटा जाना	८७६	६९०—कौरव-पाण्डवोंका घमामान युद्ध	८९७
६७९—दुर्योधनका राजा शल्यसे कर्णका सारथि बननेके लिये अनुरोध ...	८७९	६९१—भीमसेनद्वारा विवित्मुका मस्तक काटा जाना	८९९
६८०—दुर्योधनके प्रस्तावसे रुठकर शल्यका घरके निये प्रस्थान और दुर्योधनका उन्हें रोकना	८८०	६९२—भीमसेनके गदाप्रहारसे मवारोमहित हाथियोंका सहार ...	८९९
६८१—कर्णके सारथि बने हुए राजा शल्यका घोड़ोंकी रास सेभालना	८८५	६९३—दोनों पक्षकी सेनाओंमें भयकर युद्ध— खूनकी नदी बहना ...	९००

६९४-श्रीकृष्ण और अर्जुनका अपने रथपर चढ़े हुए संशयकोंको पफड़कर नीचे ढकेलना १०१

६९५-रथहीन शिखण्डीका हाथमें तलवार लेकर कृपाचार्यपर धावा करना और उनके बाणोंसे घायल होना ... १०२

६९६-कर्णके बाणोंसे पाञ्चाल वीरोंका संहार... १०३

६९७-अश्वत्थामाका घृष्टद्युम्नके रथको तोड़कर उसकी तलवारको भी काट देना ... १०५

६९८-भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनको दूरसे ही राजा युधिष्ठिरका दर्शन कराना ... १०६

६९९-शिखण्डीद्वारा कर्णपर बाण-प्रहार ... १०८

७००-कर्णद्वारा घायल हुए युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें पहुँचकर नकुल-सहदेवको भीमकी सहायताके लिये भेजना ... ११०

७०१-अर्जुनके पृष्ठपर भीमका उन्हें राजा युधिष्ठिरका पता बताना १११

७०२-छावनीमें पहुँचकर श्रीकृष्ण और अर्जुनका युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणाम करना ... ११२

७०३-युधिष्ठिरका अर्जुनसे कर्णवधका समाचार पूछना ... ११२

७०४-अर्जुनका युद्धसम्बन्धी समाचार बतलाना ... ११३

७०५-कर्णके जीवित रहनेका पता पाकर युधिष्ठिरका अर्जुनको धिक्कारना ... ११४

७०६-धिक्कार सुनकर कुपित हुए अर्जुनका युधिष्ठिरको मारनेके लिये उद्यत होना और श्रीकृष्णका उन्हें धर्मका तत्त्व समझाकर रोकना ११५

७०७-अर्जुनका भगवान् कृष्णसे प्रतिज्ञामङ्ग और भ्रातृवधसे वचनका उपाय पूछना ... ११७

७०८-अर्जुनद्वारा युधिष्ठिरका अपमानरूप वध ... ११८

७०९-अर्जुनके कठोर वचनोंसे दुखी होकर युधिष्ठिरका वनमें जानेको तैयार होना और भगवान् कृष्णका उन्हें रोकना ... ११९

७१०-भगवान्का उदास हुए अर्जुनको युधिष्ठिरसे क्षमा माँगनेका आदेश ... १२०

७११-युधिष्ठिरका अर्जुनके प्रति कर्णको मारनेके लिये आदेश ... १२०

७१२-श्रीकृष्णका अर्जुनसे उनके पराक्रमोंका वर्णन १२१

७१३-अर्जुनका श्रीकृष्णसे अपने उत्साहका वर्णन ... १२४

७१४-उत्तमौजाद्वारा कर्णपुत्र सुपेणका वध ... १२४

७१५-भीमसेनका अपने सारथिसे वातालाप ... १२५

७१६-भीमसेन द्वारा कौरवसेनाका संहार १२७

७१७-कर्णद्वारा पाण्डवसेनाका संहार १२८

७१८-श्रीकृष्ण और अर्जुनका कर्णपर धावा तथा शल्यका कर्णको सावधान करना १२९

७१९-अर्जुनद्वारा म्लेच्छोंकी गजसेनाका संहार १३१

७२०-भीमसेनका दुःशासनके धनुषको काटकर उसके ललाटमें बाण मारना और उसके सारथिका मस्तक काट डालना १३३

७२१-तलवार हाथमें लिये भीमसेनके द्वारा दुःशासनका गला दबाया जाना और उसकी दाहिनी बांहका उखाड़ा जाना १३४

७२२-भीमद्वारा दुःशासनकी छातीका रक्त-पान १३४

७२३-रक्त-पान करते समय भीमका भयंकर रूप देख कौरव-सेनाका भयसे भागना १३५

७२४-भीमसेनका श्रीकृष्ण और अर्जुनसे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होनेकी बात सुनाना १३५

७२५-अर्जुनद्वारा वृषसेनके धनुष, दोनों बाँहों तथा मस्तकका काटा जाना और उसका रथसे लुढ़ककर गिरना ... १३७

७२६-अर्जुनका भगवान् कृष्णसे कर्णके पास रथ ले चलनेके लिये अनुरोध ... १३८

७२७-कर्ण और अर्जुनका युद्ध १३९

७२८-ब्रह्मा और शिवका इन्द्रसे अर्जुनकी विजय घोषित करना ... १३९

७२९-अश्वत्थामाका दुर्योधनसे सन्धिके लिये प्रस्ताव १४१

७३०-दुर्योधनका अपने सैनिकोंको उत्तेजित करना १४१

७३१-भगवान् द्वारा कर्णके सर्पमुख बाणसे अर्जुनको रक्षा ... १४५

७३२-कर्णके पहिलेका जमीनमें धँसना १४६

७३३-कर्णका अपने फँसे हुए पहिलेको निकालना १४७

७३४-श्रीकृष्णका कर्णको फटकारना १४८

७३५-कर्णके मस्तकका कटना और उसके तेजका सूर्यमें लय होना ... १४९

७३६-कर्णकी मृत्युसे दुर्योधनका विषाद १५०

७३७-भीमका सिहनाद और सौमकोंका हृष्य १५०

७३८-भीमद्वारा पैदल सैनिकोंका संहार १५१

७३९-दुर्योधनके मना करनेपर भी कौरव-सेनाका भागना ... १५२

७४०-शल्यका दुर्योधनको रणभूमिका दृश्य दिखाना १५२

७४१-कौरव-सेनाका छावनीमें जाना १५३

७४२-मुत्रसहित मरे हुए कर्णकी सास देख युधिष्ठिर- का भगवान् कृष्णसे कृतज्ञता प्रकट करना	१५४	७६९-शकुनिका दुर्योधन आदिको पाण्डवोंकी रथ- सेनापर धावा करनेका आदेश	१७८
७४३-कर्णकी मृत्यु सुनकर धृतराष्ट्रका मूर्च्छित होना	१५५	७७०-भीमद्वारा कौरवोंकी गजसेनाका संहार	१७९
शाल्यपर्व		७७१-भीमके क्षुरप्रसे श्रुतवर्तिका वध	१८१
७४४-कौरवोंका भागना और हाथियोद्वारा रथोंका विध्वंस	१५६	७७२-श्रीकृष्णका अर्जुनको दुर्योधनपर धावा करने- का आदेश	१८१
७४५-कृपाचार्यका दुर्योधनको सन्धिके लिये समझाना	१५७	७७३-अर्जुनद्वारा सुभामाका वध	१८२
७४६-दुर्योधनके पूछनेपर अश्वत्थामाका शल्यको सेनापति बनानेकी सलाह देना	१५९	७७४-महूदेवद्वारा शकुनिका वध	१८३
७४७-दुर्योधनका शल्यसे सेनापति बननेकी प्रार्थना	१६०	७७५-सहायकोमे रहित दुर्योधनका भाग जानेका विचार	१८४
७४८-शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक	१६०	७७६-व्यासजीके द्वारा सञ्जयकी प्राणरक्षा	१८५
७४९-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको शल्यका वध करनेके लिये उत्साहित करना	१६१	७७७-सञ्जयकी दुर्योधनसे भेंट	१८५
७५०-कौरव महारथियोंका एक साथ लड़नेकी क्षाप्य सेना	१६१	७७८-कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामाकी सञ्जयसे भेंट तथा दुर्योधनका समाचारपूछना	१८६
७५१-शल्यका मारथियोंके युधिष्ठिरके पास रथ ले चलनेका आदेश	१६२	७७९-राजमन्त्री और मिपाहियोंके साथ कौरव- रानियोंका हस्तिनापुर जाना	१८६
७५२-नकुलद्वारा चित्रसेनका वध	१६३	७८०-युधिष्ठिरका युगुत्सुको हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देना	१८७
७५३-नकुलद्वारा शल्यसेनका वध	१६३	७८१-युगुत्सु और विदुरजी की भेंट	१८७
७५४-भीमद्वारा कृतवर्माके रथका विनाश और कृतवर्माका भागना	१६५	७८२-पानीमे छिपे हुए दुर्योधनकी अपने तीनों महारथियोंसे बातचीत	१८८
७५५-भीम और शल्यका गदामुद्ध	१६५	७८३-दुर्योधन और उसके महारथियोंकी गुप्त वार्ता सुनकर व्याधोंका आपसमें सलाह करना	१८९
७५६-दुर्योधनके प्राससे चिकित्सानकी मृत्यु	१६६	७८४-व्याधोंका भीमसेनसे दुर्योधनका पता बताना	१८९
७५७-राजा शल्यपर पाँच महारथियोंका धावा	१६८	७८५-कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामाका बरगदके नीचे विधाम	१९०
७५८-युधिष्ठिरकी शल्यको मारनेकी प्रतिज्ञा	१६९	७८६-पानोमे स्थित हुए दुर्योधनका युधिष्ठिरकी बातों का जवाब देना	१९१
७५९-भीमकी शान्तिसे दुर्योधनकी मूर्च्छा और उसके मारथिना वध	१६९	७८७-दुर्योधनका किसी भी पाण्डवकी युद्धके लिये आवाहन	१९३
७६०-शल्य और कृपाचार्यद्वारा युधिष्ठिरके धनुष, सारथि एवं घोड़ोंका नाश	१७०	७८८-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको उनाहना देना	१९३
७६१-युधिष्ठिरकी शान्तिसे शल्यका वध	१७१	७८९-गदाधारी दुर्योधन और भीमका परस्पर क्षामना	१९४
७६२-युधिष्ठिरद्वारा शल्यके भाईका वध	१७१	७९०-बलरामजीका आगमन और पाण्डवोंद्वारा उनका मल्कार	१९५
७६३-शल्यके सैनिकोंका पाण्डव-सेनापर आक्रमण	१७२	७९१-गदा ऊँचे करके भीम और दुर्योधनका बलरामजीके प्रति सम्मान प्रकट करना	१९५
७६४-शकुनिका दुर्योधनमे मद्रराजके सैनिकोंकी रक्षाके लिये कहना	१७२	७९२-मित्रावरणके, पाथ्रमपर बलरामजीको देवर्षि नारदका दर्शन	१००७
७६५-भीमसेनकी गदामे पंदल योद्धाओंका विनाश	१७४	७९३-भीम और दुर्योधनका गदामुद्ध	१००९
७६६-दुर्योधनका अपने भागते हुए सैनिकोंको रोकना	१७४	७९४-दुर्योधनका भीमकी छानीपर गदा मारना	१०११
७६७-शल्यद्वारा पाण्डव-सेनाका संहार	१७५		
७६८-नाल्यकिद्वारा शल्यका और घुष्टघुम्नकी गदामे शल्यके हाथीका वध	१७५		

६९४-श्रीकृष्ण और अर्जुनका अपने रथपर चढ़े हुए संशप्तकोंको पकड़कर नीचे ढकेलना	१०१	७१६-भीमसेन द्वारा कौरवसेनाका संहार	१२७
६९५-रथहीन शिखण्डीका हाथमें तलवार लेकर कृपाचार्यपर धावा करना और उनके बाणोंसे घायल होना	१०२	७१७-कर्णद्वारा पाण्डवसेनाका संहार	१२८
६९६-कर्णके बाणोंसे पाञ्चाल वीरोंका संहार . . .	१०३	७१८-श्रीकृष्ण और अर्जुनका कर्णपर धावा तथा शल्यका कर्णको सावधान करना	१२९
६९७-अश्वत्थामाका घृष्टद्युम्नके रथको तोड़कर उसकी तलवारको भी काट देना . . .	१०५	७१९-अर्जुनद्वारा म्लेच्छोंकी गजसेनाका संहार	१३१
६९८-भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनको दूरसे ही राजा युधिष्ठिरका दर्शन कराना . . .	१०६	७२०-भीमसेनका दुःशासनके धनुषको काटकर उसके ललाटमें बाण मारना और उसके सारथिका मस्तक काट डालना	१३३
६९९-शिखण्डीद्वारा कर्णपर बाण-प्रहार . . .	१०८	७२१-तलवार हाथमें लिये भीमसेनके द्वारा दुःशासनका गला दबाया जाना और उसकी दाहिनी बांहका उखाड़ा जाना	१३४
७००-कर्णद्वारा घायल हुए युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें पहुँचकर नकुल-सहदेवको भीमकी सहायताके लिये भेजना . . .	११०	७२२-भीमद्वारा दुःशासनकी छातीका रक्त-पान	१३४
७०१-अर्जुनके पृच्छनेपर भीमका उन्हें राजा युधिष्ठिरका पता बताना	१११	७२३-रक्त-पान करते समय भीमका भयंकर रूप देख कौरव-सेनाका भयसे भागना	१३५
७०२-छावनीमें पहुँचकर श्रीकृष्ण और अर्जुनका युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणाम करना . . .	११२	७२४-भीमसेनका श्रीकृष्ण और अर्जुनसे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होनेकी बात सुनाना	१३५
७०३-युधिष्ठिरका अर्जुनसे कर्णवधका समाचार पूछना	११२	७२५-अर्जुनद्वारा वृषसेनके धनुष, दोनों बाँहों तथा मस्तकका काटा जाना और उसका रथसे लुढ़ककर गिरना . . .	१३७
७०४-अर्जुनका युद्धसम्बन्धी समाचार बतलाना . . .	११३	७२६-अर्जुनका भगवान् कृष्णसे कर्णके पास रथ ले चलनेके लिये अनुरोध . . .	१३८
७०५-कर्णके जीवित रहनेका पता पाकर युधिष्ठिरका अर्जुनको धिक्कारना . . .	११४	७२७-कर्ण और अर्जुनका युद्ध	१३९
७०६-धिक्कार सुनकर कुपित हुए अर्जुनका युधिष्ठिरको मारनेके लिये उद्यत होना और श्रीकृष्णका उन्हें धर्मका तत्त्व समझाकर रोकना	११५	७२८-ब्रह्मा और शिवका इन्द्रसे अर्जुनकी विजय घोषित करना	१३९
७०७-अर्जुनका भगवान् कृष्णसे प्रतिज्ञाभङ्ग और भ्रातृवधसे वचनेका उपाय पूछना . . .	११७	७२९-अश्वत्थामाका दुर्योधनसे सन्धिके लिये प्रस्ताव	१४१
७०८-अर्जुनद्वारा युधिष्ठिरका अपमानरूप वध . . .	११८	७३०-दुर्योधनका अपने सैनिकोंको उत्तेजित करना	१४१
७०९-अर्जुनके कठोर वचनोंसे दुखी होकर युधिष्ठिरका वनमें जानेको तैयार होना और भगवान् कृष्णका उन्हें रोकना . . .	११९	७३१-भगवान् द्वारा कर्णके सर्पमुख बाणसे अर्जुनकी रक्षा	१४५
७१०-भगवान्का उदास हुए अर्जुनको युधिष्ठिरसे क्षमा माँगनेका आदेश	१२०	७३२-कर्णके पहिलेका जमीनमें धँसना	१४६
७११-युधिष्ठिरका अर्जुनके प्रति कर्णको मारनेके लिये आदेश	१२०	७३३-कर्णका अपने फँसे हुए पहिलेको निकालना	१४७
७१२-श्रीकृष्णका अर्जुनसे उनके पराक्रमोंका वर्णन	१२१	७३४-श्रीकृष्णका कर्णको फटकारना	१४८
७१३-अर्जुनका श्रीकृष्णसे अपने उत्साहका वर्णन . . .	१२४	७३५-कर्णके मस्तकका कटना और उसके तेजका सूर्यमें लय होना	१४९
७१४-उत्तमौजाद्वारा कर्णपुत्र सुपेणका वध . . .	१२४	७३६-कर्णकी मृत्युसे दुर्योधनका विषाद	१५०
७१५-भीमसेनका अपने सारथिसे वार्तालाप . . .	१२५	७३७-भीमका सिंहनाद और सोमकोंका हर्ष	१५०
		७३८-भीमद्वारा पैदल सैनिकोंका संहार	१५१
		७३९-दुर्योधनके मना करनेपर भी कौरव-सेनाका भागना	१५२
		७४०-शल्यका दुर्योधनको रणभूमिका दृश्य दिखाना	१५२
		७४१-कौरव-सेनाका छावनीमें जाना	१५३

७४२-मुनसहित मरे हुए कर्णकी लाश देख युधिष्ठिर- का भगवान् कृष्णसे कृतज्ञता प्रकट करना	१५४
७४३-कर्णकी मृत्यु मुनकर परतराष्ट्रका मूर्च्छित होना	१५५

शाल्यपर्व

७४४-कौरवोका भागना और हाथियोंद्वारा रथोका विध्वंस	१५६
७४५-कृपाचार्यका दुर्योधनको सन्धिके लिये समझाना	१५७
७४६-दुर्योधनके पूछनेपर अश्वत्थामाका शल्यको सेनापति बनानेकी सलाह देना	१५९
७४७-दुर्योधनका शल्यसे सेनापति बननेकी प्रार्थना	१६०
७४८-शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक	१६०
७४९-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको शल्यका वध करनेके लिये उत्साहित करना	१६१
७५०-कौरव महाारथियोका एक साथ लड़नेकी दाय सेना	१६१
७५१-शल्यका सारथिको युधिष्ठिरके पाम रथ से चलनेका आदेश	१६२
७५२-नकुलद्वारा चित्रसेनका वध	१६३
७५३-नकुलद्वारा शल्यसेनका वध	१६३
७५४-भीमद्वारा कृतवर्माके रथका विनाश और कृतवर्माका भागना	१६५
७५५-भीम और शल्यका गदायुद्ध	१६५
७५६-दुर्योधनके प्राप्तसे वैकितानकी मृत्यु	१६६
७५७-राजा शल्यपर पाँच महारथियोंका घावा	१६८
७५८-युधिष्ठिरकी शल्यको मारनेकी प्रतिज्ञा	१६९
७५९-भीमकी शक्तिसे दुर्योधनको मूर्च्छा और उसके मारथिका वध	१६९
७६०-शल्य और कृपाचार्यद्वारा युधिष्ठिरके धनुष, सारथि एव घोडोंका नाश	१७०
७६१-युधिष्ठिरकी शक्तिसे शल्यका वध	१७१
७६२-युधिष्ठिरद्वारा शल्यके भाईका वध	१७१
७६३-शल्यके सैनिकोका पाण्डव-सेनापर आक्रमण	१७२
७६४-शकुनिका दुर्योधनसे मद्रराजके सैनिकोंकी रक्षाके लिये कहना	१७२
७६५-भीमसेनकी गदामे पैदल योद्धाओंका विनाश	१७४
७६६-दुर्योधनका अपने भागते हुए सैनिकोंको रोकना	१७४
७६७-शल्यद्वारा पाण्डव-सेनाका सहार	१७५
७६८-साल्यकिद्वारा शल्यका और घृष्टछम्नकी गदामे शल्यके हाथीका वध	१७५

७६९-शकुनिका दुर्योधन आदिको पाण्डवोंकी रथ- सेनापर धावा करनेका आदेश	१७८
७७०-भीमद्वारा कौरवोंकी गजसेनाका सहार	१७९
७७१-भीमके धारप्रसे श्रुतवाका वध	१८१
७७२-श्रीकृष्णका अर्जुनको दुर्योधनपर धावा करने- का आदेश	१८१
७७३-अर्जुनद्वारा सुगर्माका वध	१८२
७७४-सहदेवद्वारा शकुनिका वध	१८३
७७५-सहायकोंसे रहित दुर्योधनका भाग जानेका विचार	१८४
७७६-व्यासजीके द्वारा सञ्जयकी प्राणरक्षा	१८५
७७७-सञ्जयकी दुर्योधनसे भेंट	१८५
७७८-कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामाकी सञ्जयसे भेंट तथा दुर्योधनका समाचार पूछना	१८६
७७९-राजमन्त्री और सिपाहियोंके साथ कौरव- रानियोंका हस्तिनापुर जाना	१८६
७८०-युधिष्ठिरका युयुत्सुको हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देना	१८७
७८१-युयुत्सु और विदुरजी की भेंट	१८७
७८२-पानीमे छिपे हुए दुर्योधनकी अपने तीनों महारथियोंसे बातचीत	१८८
७८३-दुर्योधन और उसके महारथियोंकी गुप्त बातों मुनकर व्याधोंका आपसमे सलाह करना	१८९
७८४-व्याधोंका भीमसेनसे दुर्योधनका पता बताना	१८९
७८५-कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामाका बरगदके नीचे विश्राम	१९०
७८६-पानीमे स्थित हुए दुर्योधनका युधिष्ठिरकी बातों का जवाब देना	१९१
७८७-दुर्योधनका किसी भी पाण्डवको युद्धके लिये आवाहन	१९३
७८८-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको जवाहना देना	१९३
७८९-गदापारी दुर्योधन और भीमका परस्पर सामना	१९४
७९०-बलरामजीका आगमन और पाण्डवोंद्वारा उनका सत्कार	१९५
७९१-गदा ऊँची करके भीम और दुर्योधनका बलरामजके प्रति सम्मान प्रकट करना	१९५
७९२-मित्रावरणके आश्रमपर बलरामजीको देवधि नारदका दर्शन	१००७
७९३-भीम और दुर्योधनका गदायुद्ध	१००९
७९४-दुर्योधनका भीमकी छानोकर गदा मारना	१०११

७९५—भीम और दुर्योधनका भयंकर युद्ध देख श्री- कृष्ण और अर्जुनकी बातचीत ...	१०११
७९६—युधिष्ठिरका रणभूमिमें गिरे हुए दुर्योधनको मान्दवना देना ...	१०१३
७९७—ब्रलभद्रजीका भीमको मारनेके लिये उद्यत होना और श्रीकृष्णका उन्हें रोकना ...	१०१४
७९८—श्रीकृष्णके उतरने ही अर्जुनके रथका जलकर भस्म होना ...	१०१६
७९९—श्रीकृष्ण और गान्धारीकी बातचीत ...	१०१८
८००—कृपाचार्यद्वारा अश्वत्थामाका सेनापतिके पद- पर अभिषेक ...	१०२१

सौप्तिकपर्व

८०१—रात्रिमें सोये हुए कौओंपर उल्लूका आक्रमण देख अश्वत्थामाका इसी प्रकार सोये हुए पाण्डववीरोंपर घावा करनेका संकल्प ...	१०२३
८०२—अश्वत्थामाको पाण्डव-छावनीपर पहरा देते हुए महादेवजीके दर्शन ...	१०२७
८०३—भगवान् शंकरद्वारा अग्निमें प्रविष्ट अश्वत्थामाको तलवार भेंट करना और उनके शरीरमें स्वतः प्रवेश करना ...	१०२८
८०४—अश्वत्थामाका घृष्टद्युम्नकी छातीपर चढ़कर उसे गला घोटकर मारना ...	१०२९
८०५—अश्वत्थामाकी करतूत सुनकर दुर्योधनका प्रसन्न होना ...	१०३३
८०६—पुत्रों और भाइयोंकी मृत्युसे द्रौपदीका शोक और युधिष्ठिरका उसे समझाना ...	१०३४
८०७—अश्वत्थामाका अपने हाथसे श्रीकृष्णका चक्र उठानेकी कोशिश करना ...	१०३५
८०८—अर्जुन और अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रोंको शान्त करानेके लिये देवर्षि नारद और व्यासजीका आना ...	१०३७
८०९—भीमसेनका द्रौपदीकी अश्वत्थामाकी मणि दिखाना ...	१०३९

स्त्रीपर्व

८१०—पुत्रशोकसे आतुर हुए धृतराष्ट्रको व्यासजीका समझाना ...	१०४५
८११—रणभूमिमें जाते हुए धृतराष्ट्रकी अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्यसे भेंट ...	१०४६
८१२—धृतराष्ट्रका युधिष्ठिरको गले लगाना ...	१०४८

८१३—पाण्डवोंका गान्धारीके पास जाना और व्यास- जीका गान्धारीको शान्त करना ...	१०४९
८१४—युधिष्ठिरका गान्धारीके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना ...	१०५०
८१५—शोकाकुला द्रौपदीको गान्धारीका समझाना ...	१०५०
८१६—गान्धारीका श्रीकृष्णको शाप देना ...	१०५४
८१७—कुरुकुलकी स्त्रियों और पुरुषोंका अपने मरे हुए सम्बन्धियोंको जलाञ्जलि देना ...	१०५६

शान्तिपर्व

८१८—मुनियोंके साथ बैठे हुए नारदजीका युधिष्ठिर- से कुशल पूछना ...	१०५८
८१९—कर्णको ब्राह्मणका शाप ...	१०६०
८२०—कीटयोनिसे उद्धार पाये हुए दंशानुरका परशुरामजीमें अपने शापकी कथा सुनाना ...	१०६१
८२१—अर्जुनका युधिष्ठिरको समझाना ...	१०६२
८२२—इन्द्रका पक्षीके रूपमें ब्राह्मण बालकोंको उपदेश करना ...	१०६४
८२३—द्रौपदीका युधिष्ठिरको समझाना ...	१०६७
८२४—व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाना ...	१०७२
८२५—विना पूछे हुए फल तोड़नेके अपराधमें शङ्खका लिखितकी राजाके पास चोरीका दण्ड ग्रहण करनेके लिये भेजना ...	१०७३
८२६—श्रीकृष्णका युधिष्ठिर को समझाना ...	१०७८
८२७—नारदजीद्वारा अपने मरे हुए पुत्रके जीवित होनेसे राजा सञ्जय और उसकी रानीका प्रसन्न होना ...	१०८०
८२८—युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमें प्रवेश ...	१०८७
८२९—युधिष्ठिरद्वारा ध्यानमग्न भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति ...	१०९१
८३०—वेनकी दाहिनी भुजासे पृथुका आविर्भाव ...	११०८
८३१—मान्धाताके द्वारा इन्द्ररूपधारी भगवान् विष्णुका पूजन ...	१११२
८३२—ब्रह्माजीका मनुको प्रजाको रक्षाके लिये राजा होनेका आदेश ...	१११५
८३३—महर्षि कश्यपका राजा पुरुुरवाको उपदेश ...	११२१
८३४—केकयराजकी धर्मनिष्ठा देखकर राक्षसका उन्हें छोड़कर जाना ...	११२५
८३५—कालकवृक्षीय मुनिका राजा क्षेमदर्शीके राज्यमें आना तथा कौएद्वारा राज्यमें की हुई चोरीका पता बताना ...	११२८

पृष्ठ-संख्या	पृष्ठ-संख्या
८३६-कालकवुक्षीय मुनिका राजा जनक और धर्मदर्शनीं मेल कराना ११४९	८६२-राजा जनकको पराशर मुनिका उपदेश . . . १२९२
८३७-समुद्र और नदियोंका संवाद ११५५	८६३-साध्यगणोंको हंसका उपदेश १३००
८३८-चाण्डालका आना और जाल कट जानेसे चूहे तथा विलावका भागना ११७०	८६४-बमिष्ठका राजा कालजनकको उपदेश . . . १३०५
८३९-पूजनी चिडिया और राजा ब्रह्मदत्तका संवाद ११७२	८६५-राजकुमार वसुमानुका एक ऋषिके पास जाना १३१०
८४०-कयूत्तरका अतिथिसत्कार—व्याधको भोजन देनेके लिये स्वयं आगमें कूदकर प्राण देना ११७६	८६६-याज्ञवल्क्यके ध्यान करनेपर अकारसहित सस्वतीदेवीका प्रकट होना १३१५
८४१-जनमेजयका इन्द्रोत्त मुनिकी शरणमें जाना . . ११७९	८६७-व्यासजीको भगवान् शंकरका वरदान देना १३२१
८४२-भगवान् शंकरका मरे हुए बालकको जिलाना ११८२	८६८-शुकदेवका प्रादुर्भाव और वहाँ पार्वतीसहित भगवान् शंकर तथा इन्द्रका आगमन . . . १३२१
८४३-राजधर्मा वकका गौतम ब्राह्मणकी थकावट दूर करनेके लिये अपने पक्षीसे हवा करना . . . ११९३	८६९-मिथिलाके राजद्वारपर शुकदेवजीका द्वार-पालोंद्वारा रोका जाना १३२२
८४४-मीदङ्गरूपधारी इन्द्र और काश्यप ब्राह्मणका संवाद १२०३	८७०-स्त्रियोसे घिरे होनेपर भी शुकदेवजीका निर्वाकारभावसे ध्यानस्थ होना . . . १३२३
८४५-कैलास-शिखरपर बैठे हुए भृगुजीसे भरद्वाज मुनिका प्रश्न करना १२०४	८७१-राजा जनकका आतिथ्य स्वीकार करके शुकदेवजीका उनसे प्रश्न करना १३२४
८४६-जापक ब्राह्मणको सावित्री देवीका दर्शन . . . १२१३	८७२-व्यासजीके आश्रमपर नारदजीका आना और उनकी उदासीनताका कारण पूछना . . . १३२६
८४७-जापक ब्राह्मणके पास राजा इक्ष्वाकुका आना १२१४	८७३-शुकदेवजीको नारदजीका उपदेश १३२७
८४८-मनु और बृहस्पतिका संवाद १२१६	८७४-भगवान् नर-नारायणके द्वारा नारदजीकी शङ्काका समाधान १३३४
८४९-भगवान् वराहके द्वारा दैत्योका संहार . . . १२२२	८७५-श्वेतद्वीपमें भगवानुका विश्वरूप धारण करके नारदजीको दर्शन देना १३३९
८५०-महर्षि पञ्चशिखका राजा जनकको उपदेश १२२९	८७६-ब्रह्माजीके समक्ष भगवानुका हृषीकेशके रूपमें प्रकट होना १३४६
८५१-देवर्षि नारद और इन्द्रका गङ्गातटपर सूर्योपस्थान करना और आकाशसे आशा आदि देवियोंके साथ लक्ष्मीजीका प्रकट होना १२३७	८७७-भगवान् विष्णुके द्वारा मधु और कैंटभका वध १३४६
८५२-भगवान् श्रीकृष्णका उग्रसेनसे नारदजीके गुणोंका वर्णन १२४०	८७८-नागराजका गोमतीके तटपर जाकर वहाँ बैठे हुए ब्राह्मणसे उसके आनेका कारण पूछना १३५१
८५३-व्यासजीका शुकदेवको उपदेश १२४१	८७९-व्याधका गौतमीके पुत्रको दँतेनेवाले साँपको पकड़कर लाना और गौतमीका उसे छोड़ देनेकी आज्ञा देना १३५३
८५४-जाजलिकी जटायुं चिडियोंका घोंसला बनाकर रहना १२६०	८८०-धर्मका अनिपुत्र मुदर्सनको वरदान देना . १३५७
८५५-नीरोपर पड़े हुए अपने पुत्र चिरकारीको गौतमका आश्वासन देना १२६६	८८१-ऋषीक मुनिके चिन्तन करनेपर गङ्गाके जलसे एक हजार इयामकर्ण घोड़ोका प्रकट होना १३५८
८५६-तापस्वी ब्राह्मणको कुण्डधार मेघका दर्शन देना १२७१	८८२-व्याधके विप्लवे वाणके प्रभावसे एक महान् वृक्षका सूखना १३५९
८५७-शुक्राचार्यके अनुरोधसे मनकादिकीका वृत्रामुरको उपदेश १२७७	८८३-सोतेकी भक्तिसे प्रसन्न होकर इन्द्रका सूखे हुए वृक्षको हरा-भरा कर देना १३६०
८५८-इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण १२७९	८८४-मीदड और वानरका संवाद १३६३
८५९-दक्षके यज्ञमें दधीचिके द्वारा भगवान् शंकरकी पूजा न होनेका विरोध १२८१	८८५-सिद्ध पुरुषके द्वारा ब्राह्मणको गङ्गाजीका माहात्म्य सुनाना १३७३
८६०-महादेवजी और भवानीके क्रोधसे वीरभद्र और भद्रकालीका प्रादुर्भाव १२८२	
८६१-अरिष्टनेमिका राजा सगरको उपदेश . . . १२९१	

८८६-वीतहव्यका भृगुजीके आश्रममें छिपना और उसका पीछा करनेवाले प्रतर्दनसे भृगुजीकी बातचीत	१३७७	आना और यातुधानीको अपने नामका परिचय देना	१४३३
८८७-विपुलको जुआ खेलते हुए छः पुरुषोंके दर्शन	१३८६	९०४-इन्द्रका अगस्त्यमुनिको कमल वापस देना	१४३७
८८८-च्यवनका मछलियोंके साथ जालमें फँसकर खिच आना और मल्लार्होंका उनसे क्षमा माँगना	१३९२	९०५-रेणुकाको सूर्यके तापसे सन्तप्त जानकर जमदग्निका सूर्यको मार गिरानेका संकल्प करना	१४३८
८८९-च्यवन मुनिका राजमहलसे चुपचाप बाहर निकलना और चिन्तित हुए राजा कुशिक तथा उनकी रानीका मुनिके पीछे-पीछे जाना	१३९४	९०६-सूर्यका ब्राह्मणके वेषमें आकर जमदग्निको छोंता और जूता देना	१४३९
८९०-राजा और रानीका च्यवन मुनिके शरीरमें तेलकी मालिश करना	१३९५	९०७-गृहस्थ-धर्मके विषयमें पृथ्वी और श्रीकृष्णका संवाद	१४४०
८९१-च्यवन मुनिका रथमें जुते हुए राजा और रानीको चावुक मारना और पुरवासियोंका चिन्तित भावसे देखना	१३९६	९०८-वृहस्पतिका युधिष्ठिरको उपदेश	१४५२
८९२-सन्तुष्ट हुए च्यवन मुनिका राजा और रानीके घायल शरीरपर स्नेहके साथ हाथ फेरना	१३९६	९०९-कीड़ेका क्षत्रिय-योनिमें उत्पन्न होकर महर्षि व्यासका दर्शन करना	१४६०
८९३-राजा कुशिक और उनकी रानीको च्यवन-मुनिका आशीर्वाद देना	१३९८	९१०-शाण्डिली और सुमनाका संवाद	१४६३
८९४-गौके लिये विवाद करते हुए दो ब्राह्मणोंका राजा नृगके पास आना	१४११	९११-राक्षसका ब्राह्मणसे प्रश्न करना	१४६४
८९५-वसिष्ठका गौओंको प्रणाम करके राजा सीदासको गो-दानकी विधि और गौओंकी महिमा बतलाना	१४१८	९१२-देवदूतका पितरों और देवताओंसे श्राद्ध-विषयक प्रश्न करना	१४६६
८९६-गौओंकी तपस्या और ब्रह्माजी का उन्हें वरदान देना	१४१९	९१३-इन्द्रका प्रश्न और भगवान् विष्णुका उत्तर देना	१४६८
८९७-गौओं तथा लक्ष्मीजीकी बातचीत	१४२०	९१४-विष्णुका देवताओंको उपदेश	१४७०
८९८-इन्द्रका ब्रह्माजीसे गोलोकके उत्कर्षका कारण पूछना	१४२२	९१५-भगवान् श्रीकृष्णके तेजसे पर्वत शिखरका दग्ध होना	१४७४
८९९-तपस्विनी सुरभीको ब्रह्माजीका वरदान देना	१४२२	९१६-ऋषियोंके साथ बैठे हुए भगवान् शंकरके पास सरिताओंका आना और पार्वतीजीके द्वारा स्त्री-धर्मका वर्णन	१४८३
९००-भीष्मका अपने पिताको पिण्डदान करना और पिण्डके लिये विछाये हुए कुशोंमेंसे उनके पिताके हाथका प्रकट होना	१४२३	९१७-भगवान् शंकरका ऋषियोंसे श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनाना	१४८५
९०१-परशुरामजीका वसिष्ठ, नारद आदि ऋषियोंसे आत्मशुद्धिका उपाय पूछना	१४२४	९१८-नारदजीका श्रीकृष्णको उनकी महिमा सुनाना	१४८६
९०२-राजा वृषादिभिसे भृत्यकी गुलरके फलोंमें सुवर्ण भरकर सप्तर्षियोंको देनेके लिये लाना और महर्षि अत्रिका उन्हें पहचान कर लेनेसे इन्कार करना	१४३१	९१९-कार्तवीर्यका दत्तात्रेयजीसे वर माँगना	१५०४
९०३-सप्तर्षियोंका मृगाल लेनेके लिये तालाबपर		९२०-भीष्मजीके प्राण-त्यागके समय कुरुकुलके समस्त स्त्री-पुरुषोंका एकत्रित होना और भीष्मका युधिष्ठिरसे उनका हाथ पकड़कर कुछ कहना	१५१६
		९२१-भीष्मके शरीरका दाह-संस्कार	१५१७
		९२२-कौरवोंका गङ्गाके जलसे भीष्मको अञ्जलि देना, गङ्गाजीका पुत्रके लिये शोक करना और भगवान् श्रीकृष्णका उन्हें समझाना	१५१८
		आश्वमेधिकपर्व	
		९२३-युधिष्ठिरका भीष्मजीकी मृत्युके शोकसे व्याकुल होकर गङ्गाके तटपर गिरना और श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना	१५१९

	पृष्ठ-संख्या		पृष्ठ-संख्या
१२४—व्यासजीका राजा मुधिष्ठिरको ममज्ञाना	१५२०	१५२—मुधिष्ठिरके यज्ञपर आक्षेप करनेवाले नेवलेमे	
१२५—राजा मरुत्तकी नारदजीसे भेंट	१५२२	ब्राह्मणोंका प्रश्न करना	१५१५
१२६—संवर्त मुनिका बरगदके नीचे बैठकर हाथ		१५३—ब्राह्मण-परिवारके द्वारा अतिथि-सत्कार	१५१५
जोड़े खड़े हुए राजा मरुत्तमे बातचीत करना	१५२३	१५४—महर्षि अगस्त्यके यज्ञमे उनके संकल्पसे तीनों	
१२७—अग्निदेवको मूर्तिमान होकर आये देख राजा		लोकके धन तथा गन्धर्व, किन्नर एवं	
मरुत्तका संवर्त मुनिसे उनके स्वागतके लिये		अप्सरा आदिका स्वयं उपस्थित होना	१५१८
कहना	१५२६	१५५—अतिथिके साथ देवताओंका आगमन और	
१२८—क्रोपमें भरे हुए इन्द्रका वय लेकर आना		अतिथिकी तृप्तिसे उनकी भी तृप्ति	१६१०
और मरुत्तका अपनी रक्षाके लिये संवर्त		१५६—कपिला गौमे देवताओंका वास	१६२०
मुनिकीधारणमे जाना	१५२७	१५७—अन्न और वस्त्रका दान	१६२५
१२९—अर्जुनका श्रीकृष्णसे पुनः गीताका विषय पूछना	१५३१	१५८—मगवान्के द्वारका जाते समय पाण्डवोंके	
१३०—ब्राह्मणका अपनी पत्नीको ज्ञानका उपदेश	१५३७	द्वारा उनकी परिचर्या	१६३९
१३१—समुद्रका कार्तवीर्यको परशुरामजीके पास भेजना	१५४१	आश्रमवासिकपर्व	
१३२—परशुरामजीके पितामहोका उन्हें क्षत्रिय-		१५९—उपवाससे दुर्बल हुए घृतराष्ट्रकी दशा देख	
वयके कामसे रोकना	१५४२	मुधिष्ठिरका शोक	१६४३
१३३—अपराधी ब्राह्मण और जनकका संवाद	१५४४	१६०—व्यासजीका मुधिष्ठिर को समझाना	१६४४
१३४—गुरु-शिष्य-संवाद	१५४५	१६१—घृतराष्ट्रका मुधिष्ठिरको राजनीतिकी शिक्षा	
१३५—श्रमियोंको ब्रह्माजीका कल्याणका उपदेश	१५४६	देना	१६४५
१३६—उत्तङ्क मुनिका मगवान् श्रीकृष्णसे कौरव-		१६२—विदुरजीका घृतराष्ट्रके लिये मुधिष्ठिरसे	
पाण्डवोंकी कुशल पूछना	१५६२	धन माँगना	१६५०
१३७—उत्तङ्क मुनिके विष्णुरूप-दर्शन	१५६४	१६३—घृतराष्ट्र और गान्धारी आदिका वन-गमन	१६५२
१३८—उत्तङ्क मुनिके गुरुपत्नीसे गुरु-दक्षिणा माँगने-		१६४—रातमें घृतराष्ट्र आदिका तपोवनमे निवास	१६५४
के लिये अनुरोध करना	१५६५	१६५—कुक्षेत्रमे घृतराष्ट्र आदि की तपस्या	१६५५
१३९—राक्षस-भावको प्राप्त हुए राजा सीदासके साथ		१६६—विदुरजीका मुधिष्ठिरके शरीरमे प्रवेश	१६५९
उत्तक मुनिकी बातचीत	१५६६	१६७—व्यासजीका कौरव-पाण्डव-पक्षके भरे हुए	
१४०—रानी मदयन्तीका उत्तङ्क मुनिके कुण्डल देना	१५६७	वीरोंको प्रकट करना	१६६३
१४१—डंडेसे जमीन खोदते हुए उत्तङ्कके पास ब्राह्मण-		१६८—पाण्डवोंका कुन्तीसे विदा लेना	१६६६
वेपमे इन्द्रका आना और उन्हें समझाना	१५६८	१६९—घृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीका दावानलसे	
१४२—अश्वरूपधारी अग्निदेवके शरीरसे भयंकर		दग्ध होना	१६६७
धूमका प्रकट होना और नागोंका घबराना	१५६९	मौसलपर्व	
१४३—वसुदेवजीका श्रीकृष्णसे युद्धकी बात पूछना	१५७०	१७०—यदुवशी बालकोंकी मुनियोंके साथ प्रवचन	१६६९
१४४—व्यासजीका उत्तराको समझाना	१५७३	१७१—सात्यकिके हाथसे कृतवर्माका वध	१६७१
१४५—पाण्डवोंका हिमालयसे सोना ले आना	१५७४	१७२—श्रीकृष्णका वसुदेवजीसे विदा लेना	१६७२
१४६—यज्ञके घोड़ेकी रक्षाके लिये अर्जुनका प्रस्थान	१५७९	१७३—वलरामजीका परमधाम-गमन	१६७३
१४७—दुःसलाका पीपको लेकर अर्जुनकी धारणमे आना	१५८३	१७४—अर्जुनका वसुदेवजीसे मिलना	१६७४
१४८—अर्जुनकी मृत्यु और चित्राङ्गदाका उलूपीसे		१७५—अर्जुन और व्यासजीकी बातचीत	१६७७
उनके प्राण बचानेका अनुरोध	१५८५	महाप्रास्थानिकपर्व	
१४९—अर्जुनका अपने पुत्र बभ्रुवाहनको गलेसे लगाना	१५८६	१७६—अग्निदेवका अर्जुनसे गाण्डीव धनुष माँगना	१६७९
१५०—द्वारकामें पहुँचे हुए अर्जुनका राजा उग्रसेन		१७७—द्रौपदीका गिरना	१६८०
और वसुदेवजीद्वारा सत्कार	१५८८	स्यगारोहणपर्व	
१५१—यज्ञमें आये हुए बभ्रुवाहन, चित्राङ्गदा और		१७८—मुधिष्ठिरको नरकका दर्शन	
उलूपीका कुन्ती आदिसे मिलना	१५९१		

ह
का
च
पुल
वन
च
गन
वव
नका
या
राज
तेल
च्च
रानं
नि
स
घा
रा
मु
४-गं
र
४-४
३
३
१९६-
:
५९७-
५९८-
५९९-
१००-

९०१
९०२

९०

नम्र निवेदन

इस प्रकार महाभारतका संक्षिप्त भावानुवाद समाप्त हुआ। यह कैसा हुआ है, इसका निर्णय तो विन्न पाठक ही कर सकेंगे। मुझे तो इस कार्यमें लगनेसे साम-ही-साम हुआ है। महाभारतको संक्षेप करनेके वहाने मुझे इस ग्रन्थके विचारपूर्वक अध्ययन करने एवं इसमें आये हुए पवित्र चरित्रोंके आलोचन, शिक्षाप्रद कथाओंके मनन तथा भक्ति, ज्ञान एवं सदाचारकी शिक्षासे पूर्ण प्रसंगप्राप्त उपदेशोंके परिशीलन करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे मेरा महाभारत-सम्बन्धी ज्ञान तो बढ़ा ही है।

महाभारतका भारतीय वाङ्मयमें बहुत ऊँचा स्थान है। इसे पञ्चम वेद भी कहते हैं। इसका विद्वानोंमें वेदोंका-सा आदर है। इसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—चारों ही पुरुषार्थोंका निरूपण किया गया है। धर्मके तो प्रायः सभी अङ्गोंका इसमें वर्णन है। वर्णाश्रमधर्म, राजधर्म, आपद्धर्म, दानधर्म, श्राद्धधर्म, स्त्रीधर्म, मोक्षधर्म आदि विविध धर्मोंका शान्तिपूर्व एवं अनुशासनपूर्वमें भीष्मजीके द्वारा बहुत विवाद वर्णन किया गया है। भगवद्गीता—जैसा अनुपम ग्रन्थ, जिसे सारा ससार आदरकी दृष्टिसे देखता है और जिसे हम बिम्बसाहित्यका सर्वोत्तम ग्रन्थ कहें तो भी कोई अत्युक्ति न होगी, इसी महाभारतमें है। ज्ञान, कर्म और भक्तिका एक ही स्थानपर जैसा सुन्दर विवेचन गीतामें है वैसे अन्यत्र शायद ही कहीं मिलेगा। भगवद्गीता स्वयं भगवान्की दिव्य वाणी ही जो ठहरी। इस प्रकार जिस ओरसे भी हम महाभारतपर दृष्टिपात करते हैं, उसे हम परमोपयोगी पाते हैं। महाभारतके सम्बन्धमें स्वयं व्यासजीने कहा है—

अष्टादश पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः ।
वेदाः साङ्गास्तर्यकत्र भारतं चैकतः स्थितम् ॥
यया समुद्रो भगवान् यया च हिमवान् गिरिः ।
स्थातावुभौ रत्ननिधौ तथा भारतमुच्यते ॥
इदं भारतमाख्यानं यः पठेत् सुसमाहितः ।
स गच्छेत् परमां सिद्धिमिति मे नास्ति संशयः ॥

यो गीरातं कृत्कश्चिद्भयं बदाति
विप्राय वेदविदुषे सुबहुभुताय ।

पुण्यां च भारतकथां सततं शृणोति
तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ॥

(महाभारत, स्वर्गारोहणपर्व)

‘अठारहों पुराण, सारे धर्मशास्त्र (स्मृतिग्रन्थ) तथा व्याकरण, ज्योतिष, छन्दःशास्त्र, शिक्षा, कल्प एवं निरुक्त—इन छहों अङ्गों सहित चारों वेद—ये सब मिलाकर एक ओर और अकेला महाभारत एक ओर। अर्थात् वेद-वेदाङ्ग, पुराण एवं धर्मशास्त्रोंके अध्ययनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह अकेले महाभारतके अध्ययनसे प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार समुद्र और हिमालयपर्वत दोनोंको ही रत्नोंका आकर कहा गया है, उसी प्रकार यह महाभारत ग्रन्थ भी उपदेश—रत्नोंकी धान कहा जाता है। एकाग्र मनसे जो इस महाभारत इतिहासका पाठ करता है, उसे मोक्षरूप परम सिद्धि निःसंदेह प्राप्त हो जाती है। एक मनुष्य तो वेदज्ञ एवं अनेक शास्त्रोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंको सोनेसे मड़े हुए सींगेवाली सी गोएँ दान करता है और दूसरा नित्य महाभारतकी पुण्यमयी कथाका श्रवण करता है, दोनोंको समान फल मिलता है।’ जिस महाभारतकी स्वयं वेदव्यासजीने ऐसी महिमा गायी है, उसका मनोयोग-पूर्वक जितना भी पठन-पाठन होगा, उतना ही जगत्का कल्याण होगा।

इसी भावनासे प्रेरित होकर सम्पूर्ण महाभारतका संक्षिप्त भावानुवाद छापनेका विचार किया गया था। अब वह योजना निर्विघ्न पूर्ण हो भी गयी। महाभारतको संक्षिप्त करनेमें मैंने जहाँतक हो सका है, इस बातका ध्यान रखा है कि जो कथाएँ तथा जो स्थल सार्वजनिक लाभकी दृष्टिसे अधिक उपयोगी हों, उन्हें ही लिया जाय। फिर भी कुछ ऐसे विशेष उपयोगी स्थल छूट भी गये हैं और ऐसे स्थल भी रख लिये गये हैं, जो कदाचित् उतने उपयोगी न हों। इस प्रकारकी भूलोंके लिये मैं विन्न

पाठकोसे हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करता हूँ। यदि कोई सज्जन, जिन्होंने महाभारतका विशेष मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया हो, मुझे इस प्रकारकी भूलें बतलानेकी कृपा करेंगे तो मैं उनका आभारी होऊँगा।

महाभारतके पढ़ने-सुननेका अधिकार मनुष्यमात्रको है। कोई किसी भी समुदाय अथवा जातिका क्यों न हो, वह महाभारतका अध्ययन कर उसमें आये हुए उत्तमोत्तम उपदेशोंको यथाधिकार आचरणमें लाकर अपना कल्याण कर सकता है। महाभारतकी रचना करनेमें वेदव्यासजीका प्रधान उद्देश्य यही था कि स्त्रियाँ, शूद्र और पतित ब्राह्मण आदि जिन्हें शास्त्र वेद पढ़नेकी आज्ञा नहीं देते, वे लोग भी वेदोंके ज्ञानसे बञ्चित न रह जायें। इसी अभिप्रायसे ऊपर महाभारतके माहात्म्यके श्लोकोंमें यह बात कही गयी है कि अकेले महाभारतके पढ़ लेनेसे ही वेद-वेदाङ्ग, पुराण एवं धर्मशास्त्रोंका ज्ञान हो सकता है। इससे वेदोंको नीचा बतलाना ग्रन्थकारका अभीष्ट नहीं है। वस्तुतः महाभारतमें जो कुछ कहा गया है, उसका आधार तो हमारे सर्वमान्य वेद और स्मृतियाँ ही हैं। वेदों और स्मृतियोंका ही तात्पर्य सरल एवं रोचक ढंगसे महाभारतमें वर्णित है।

महाभारत एक उच्च कौटिका काव्य तो है ही, वह सच्चा इतिहास भी है। यह उपन्यासोंकी भाँति कपोल-कल्पित अथवा अतिरञ्जित नहीं है। जिन महर्षि वेदव्यासकी दो हुई दिव्यदृष्टिको पाकर संजय हस्तिनापुरमें बैठे हुए कुस्त्रोत्रमें होनेवाले युद्धकी छोटी-सी-छोटी घटनाएँ ही नहीं अपितु भगवान्का तत्त्व, प्रभाव एवं रहस्य तथा दूसरोंके मनकी वास्तविक जाननेमें समर्थ हो सके, उन्हीं

भगवत्कल्प महर्षिकी वाणीमें प्रमाद, असत्य एवं अति-शयोक्ति आदिकी तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिये। वे त्रिकालज्ञ तथा सर्वथा राग-द्वेषशून्य थे। महाभारतके कलेवरके सम्बन्धमें भी लोग अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ किया करते हैं, परंतु इस विषयमें मूल ग्रन्थको ही हमें प्रमाण मानना चाहिये, महाभारतमें ही इसकी श्लोक-संख्या एक लाख बतलायी गयी है। विद्या-बुद्धिके संभार स्वयं श्रीगणेशजीने इसे लिखा था और पूरे तीन वर्षोंमें यह ग्रन्थ तैयार हुआ था। फिर इसके विषयमें ऐसी शक्का करना कि यह पूरा ग्रन्थ वेदव्यासजीका लिखा हुआ है या नहीं कहाँतक युक्तियुक्त है? ऐसे परममान्य और परमोपयोगी ग्रन्थको सर्व-सुलभ और सर्वोपयोगी बनानेके लिये ही इसका संक्षिप्त भावानुवाद छपा गया है।

अनुवादका कार्य पूज्य पं० श्रीशान्तनुविहारोजी (स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)के द्वारा प्रारम्भ हुआ था, परंतु दो पवोंका ही अनुवाद हो सका; फिर संन्यास ग्रहण कर लेनेके कारण वे इस कार्यको आगे नहीं चला सके। इसलिये पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री तथा श्रीयुत मुनिलालजी (स्वामी श्रीसनातनदेवजी)ने मिलकर शेष अनुवाद किया। ग्रन्थका अनुवादन-संशोधन करने तथा प्रूफ आदि देखनेमें सम्पादकीय विभागके अतिरिक्त कई एक बन्धुओं तथा मित्रोंसे बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिये मैं उन सबका कृतज्ञ हूँ। आधुनिक परिपाटीके अनुसार उन्हें धन्यवाद देना तो उनके कार्यका महत्त्व घटाना होगा। इस कार्यमें कई विद्वानोंका सहयोग होनेपर भी दृष्टिदोषसे भूलोंका रह जाना तो सर्वथा सम्भव ही है। इसके लिये सभी पाठकोसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ।

विनीत—

जयदयाल गोयन्दका



श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनकी सर्पमुख वाणसे रक्षा ।

संक्षिप्त महाभारत

कर्णपर्व


कर्णके सेनापतित्वमें युद्धका आरम्भ और भीमके द्वारा क्षेमधूर्तिका वध

नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् ।
देवां सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्दामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रोतृष्य, उनके नित्यसखा नरस्वरूप नर-रत्न अर्जुन, उनकी सीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वयता महर्षि वेदव्यासको नम्रस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! द्रोणाचार्यके मारे जानेसे दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गये, शोकसे उनका उत्साह नष्ट हो गया । वे द्रोणके लिये अत्यन्त अनुत्ताप करते हुए अश्वत्थामाके पास आकर बैठे और कुछ देरतक शास्त्रीय युक्तियोंसे उसे आश्वासन देते रहे; फिर प्रदोषके समग्र अपने-अपने शिबिरमें चले गये । कर्ण, दुःशासन और शकुनिने दुर्योधनके ही शिबिरमें वह रात व्यतीत की । सोते समय वे चारों ही पाण्डवोंको दिये हुए क्लेशोंपर विचार करते रहे । पाण्डवोंको जूएमे जो कष्ट भोगने पड़े थे तथा द्रौपदीको जो भरी सामने घसीटकर लाया गया था—वे सब धातें याद करके उन्हें जड़ा परचात्ताप हुआ, उनका चित्त बहुत अशान्त हो गया ।

तत्परचात् जब सबेरा हुआ तो सपने शास्त्रीय विधिसे अनुसार अपना-अपना नित्यकर्म पूरा किया; फिर भाग्यपर भरोसा करके धर्मधारणपूर्वक उन्होंने सेनाको तैयार होनेकी आज्ञा दी और युद्धके लिये निकल पड़े । दुर्योधनने कर्णका सेनापतिके पदपर अभियेक किया और दही, घी, अक्षत, स्वर्णमुद्रा, गौ, सोना तथा बहुमूल्य वस्तुओंद्वारा उत्तम वाहनोंकी पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किये । फिर सूत, मागध तथा बंदी जनोंने जय-जयपारा किया । इसी प्रकार पाण्डव भी प्रातःकृत्य समाप्त कर युद्धका निश्चय करके शिबिरसे याहर निकले ।



धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! अब तुम मुझे यह बताओ कि कर्णने सेनापति होनेके बाद कौन-सा कार्य किया ।

सञ्जयने कहा—महाराज ! कर्णकी सम्मति जानकर दुर्योधनने रणमेरी बजवायी और सेनाको तैयार हो जानेकी आज्ञा दी । उस समय बड़े-बड़े गजराजों, रथों, कवच बांधनेवाले मनुष्यों तथा घोड़ोंका कोलाहल बढ़ने लगा । कितने ही घोड़ा उतावले हो-होकर एक दूसरेकी पुकारने लगे । इन सबकी मिली हुई ऊँची आवाजसे आसमान गूँज उठा । इसी समय सेनापति कर्ण एक दमफते हुए रथपर बैठा दिखायी पड़ा । उसके रथपर श्वेत पताका फहरा रही थी । घोड़े भी सफेद थे । ध्वजामें संपका चिह्न बना हुआ था । रथके भीतर संकड़ों तरकस, गदा, कथक, शतघनी, किङ्कुणो, शक्ति, शूल, तोमर और धनुष रखे हुए थे । कर्णने शङ्ख बजाया और उसकी आवाज सुनते ही घोड़ा उतावले होकर दौड़े । इस प्रकार कीरवोंकी बहुत बड़ी सेनाको उसने शिबिरसे याहर निकाला तथा पाण्डवोंको जीतनेकी इच्छासे उसका मगरके आकारका एक ध्वज बनाकर रण भूमिकी ओर कूच किया । उस मकर-

व्यूहके मुखके स्थानमें स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ। दोनों नेवोंकी जगह शूरवीर शकुनि और उलूक खड़े हुए। मस्तक-भागमें अश्वत्थामा तथा कण्ठदेशमें दुर्योधनके सभी भाई थे। व्यूहके मध्यभागमें बहुत बड़ी सेनासे घिरा हुआ राजा दुर्योधन था। बायें चरणके स्थानमें कृतवर्मा खड़ा हुआ, उसके साथ रणोन्मत्त ग्वालोक की नारायणी सेना भी थी। दाहिने चरणकी जगह कृपाचार्य थे, उनके साथ महान् धनुर्धर त्रिगर्त और दाक्षिणात्योंकी सेना थी। वाम चरणके पिछले भागमें मद्रदेशीय योद्धाओंको साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए। दाहिने चरणके पीछे राजा सुषेण था, उसके साथ एक हजार रथियों और तीन सौ हाथियोंकी सेना थी। व्यूहकी पूँछके स्थानमें अपनी बहुत बड़ी सेनासे घिरे हुए दोनों भाई चित्र और चित्रसेन थे।

इस प्रकार व्यूह बनाकर कर्णने जब रणाङ्गणकी ओर फूँच किया तो धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनको देखकर कहा— 'पार्थ! देखो तो सही, कर्णने कौरव-सेनाकी किस तरह मोचबंदी की है और महारथी वीर कैसे इसकी रक्षा कर रहे हैं। धृतराष्ट्रकी महासेनामें जितने बड़े-बड़े वीर थे, वे सब प्रायः मारे जा चुके हैं; अब थोड़े ही रह गये हैं। अतः मैं तो इसे तिनकेके समान समझता हूँ। इस सेनामें सूतपुत्र कर्ण ही एक महान् धनुर्धर वीर है, जिसे देवता भी नहीं जीत सकते। महाबाहो! अब उस कर्णको मार डालनेसे ही तुम्हारी विजय होगी और भरे हृदयका काँटा भी निकल जायगा। इसलिये तुम इच्छानुसार अपनी सेनाकी व्यूह-रचना करो।'।

भाईकी बात सुनकर अर्जुनने शत्रुओंके मुकाबलेमें अपनी सेनाका अर्धचन्द्राकार व्यूह बनाया। उसके वाम भागमें भीमसेन, दाहिने भागमें धृष्टद्युम्न तथा मध्यमें राजा युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हुए। नकुल और सहदेव—ये दोनों युधिष्ठिरके पीछे थे। पञ्चालदेशीय युधामन्यु और उत्तमोजा अर्जुनके पहियोंकी रक्षा करने लगे। शेष वीरोंमेंसे जिन्हें व्यूहमें जहाँ स्थान मिला, वे वहाँ खूब उत्साहके साथ डट गये। इस प्रकार कौरव तथा पाण्डवोंने व्यूह बनाकर फिर युद्धमें मन लगाया। दोनों दलोंमें ऊँची आवाज करने-वाले बाजे बज उठे। विजयाभिलाषी शूरवीरोंका सिंहनाद सुनायी देने लगा। महान् धनुर्धर कर्णको व्यूहके मुहानेपर कवच धारण किये उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोणाचार्यके वियोगका दुःख भूल गये।

तदनन्तर कर्ण तथा अर्जुन आमने-सामने आकर खड़े हुए और दोनों एक-दूसरेको देखते ही क्रोधमें भर गये। उनके संनिक भी उछलते-कूदते हुए परस्पर जा भिड़े।

फिर तो उनमें भयानक युद्ध छिड़ गया; हाथी, घोड़े और रथोंके सवार तथा पँदल योद्धा एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे। वे अर्धचन्द्र, भल्ल, क्षुरप्र, तलवार, पट्टिश और फरसोंसे अपने प्रतिपक्षियोंके मस्तक काटने लगे। मरे हुए वीर हाथी, घोड़ों तथा रथोंसे गिर-गिरकर धराशायी होने लगे। संनिकोंके हाथ, पैर और हथियार सभी चलने लगे; उनके द्वारा वहाँ महान् संहार आरम्भ हो गया। इस प्रकार जब सेनाका विध्वंस हो रहा था, उसी समय भीमसेन आदि पाण्डव हमलोगोंपर चढ़ आये। भीमसेन हाथी पर बैठे हुए थे। उन्हें दूरसे ही आते देख राजा क्षेमधूतिने, जो स्वयं भी हाथीपर सवार था, युद्धके लिये तलकारा और जनपर धावा कर दिया। पहले उन दोनोंके हाथियोंमें ही युद्ध आरम्भ हुआ। जब हाथी लड़ते-लड़ते आपसमें सट गये तो वे दोनों वीर तोमरोंसे एक दूसरेपर जोरदार प्रहार करने लगे। फिर धनुष उठाकर दोनोंने दोनोंकी वीधना आरम्भ किया। थोड़ी ही देरमें उन्होंने एक दूसरेका धनुष काटकर सिंहनाद किया और परस्पर शक्ति एवं तोमरोंकी रूढ़ी लगा दी। इसी बीचमें क्षेम-धूतिने बड़े वेगसे एक तोमरका प्रहार कर भीमसेनकी छाती छेद डाली, फिर गरजते हुए उसने छः तोमर और मारे।

भीमसेनने भी धनुष उठाया और बाणोंकी वर्षसे शत्रुके हाथीको बहुत पीड़ित किया; इससे वह भाग चला,



रोकनेसे भी नहीं रुका । क्षेमधृतिने किसी तरह हाथीको फाड़में किया और श्रोत्रमे भरकर भीमसेनको बाणोमे बाँध डाला । साथ ही उनके हाथीके भी मर्मस्थानोमे चोट पहुँचायी । हाथी उस आघातको न सह सपा । वह प्राण त्यागकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । भीमसेन उसके गिरनेसे पहले ही कूदकर जमीनपर आ गये और अपनी गदाके प्रहारसे शत्रुके हाथीको भी उन्होने मार गिराया । क्षेमधृति

भी हाथीसे कूदकर नीचे आ गया और तत्तवार उठाकर भीमसेनकी ओर दौड़ा । यह देख भीमने उसपर गदासे चोट की । उसके आघातसे क्षेमधृतिके प्राण-पत्तेह उड़ गये और वह तत्तवारके साथ ही हाथीके पास गिर पड़ा । महाराज ! क्षेमधृति कुतूहल देशका यशस्वी राजा था, उसे मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमिसे भागने लगी ।

विन्द-अनुविन्द और चित्रसेन तथा चित्रका वध, अश्वत्यामा और भीमसेनका भयंकर युद्ध

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! तत्परवात् महान् धनुषं कर्णेन अपने सोखे बाणोंसे पाण्डव-सेनाका संहार आरम्भ किया । उसके नाराजोंकी मारसे पीड़ित होकर मूंड-के-मूंड हाथी चिग्याड़ने तथा सब ओर भागने लगे । यह देख मृतपुत्र कर्णपर नकुलने धावा किया । दूसरी ओर अश्वत्यामा दुष्कर पराक्रम विद्या रहा था, उसका भीमसेनने सामना किया । केकयदेशीय विन्द और अनुविन्दको सात्यकिने रोका । श्रुतकमनि चित्रसेनका मुकाबला किया । चित्रको प्रतिविग्ध्यने रोक लिया । दुर्योधन राजा युधिष्ठिरसे भिड़ गया और श्रोत्रमे भरे हुए संशप्तकोपर अर्जुनने धावा किया । धृष्टद्युम्न कृपाचार्यके और शिशुपत्नी कृतबर्माके साथ लड़ने लगा । श्रुतकीर्तिका शत्यके साथ और सहदेवका आपके पुत्र दुःशासनके साथ युद्ध होने लगा ।

इस प्रकार उस इन्द्रयुद्धमे केकय वीर विन्द और अनुविन्द सात्यकिके ऊपर तेजस्वी बाणोंकी वर्षा करने लगे । यह देख सात्यकिने भी उन दोनोंको अपने साथकोसे आच्छादित कर दिया । विन्द-अनुविन्दने जब पुनः सात्यकिको छातीमें चोट पहुँचायी तो उसने उन दोनोंके धनुष काट दिये और तीले बाणोंसे मारकर उन्हें आगे बढ़नेसे रोक दिया । तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथमें लिये और सात्यकिको बाणोंसे ढकना आरम्भ किया । उनकी बाणवर्षासे चारों ओर अन्धकार छा गया । फिर उन तीनों महारथियोने एक दूसरेके धनुष काट डाले । अब तो सात्यकिके श्रोत्रकी सोमा न रही, उराने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उतकी प्रत्यञ्चा चढ़ायी और एक अत्यन्त तीखा क्षुरप्र चलाकर अनुविन्दका मस्तक उड़ा दिया ।

अपने शूरवीर भाईको मारा गया देख महारथी विन्दने भी दूसरा धनुष उठाया और सात्यकिको साठ बाणोंसे



बाँधकर बड़े जोरसे गर्जना की । फिर उसको छाती और भुजाओंको हजारों बाणोंसे घायल किया । इतनेपर भी सात्यकिका चेहरा मलिन नहीं हुआ, उसने हँसते-हँसते पञ्चीत बाण मारकर विन्दको घायल कर दिया । इसके बाद दोनों महारथियोने एक दूसरेका धनुष काटकर सारथि और घोड़े मार डाले । इस प्रकार जब ये रथहीन हो गये तो ढाल और तलवार हाथमें ले आपसमे लड़ने लगे । दोनों ही तरह-तरहके पंतेरे बदलते और एक दूसरेका वध करनेके लिये पूर्ण प्रयत्न करते थे । इतनेहीमे सात्यकिने विन्दको डालके दो टुकड़े कर दिये । फिर विन्द भी

सात्यकिकी ढाल काटकर तीखी तलवार ले मण्डलाकार पंतेरे देने लगा। इसी बीचमें माँका पाकर सात्यकिने बड़ी फुर्ती दिखायी। उसने तलवारका एक ऐसा हाथ मारा कि कबचसहित बिन्दके शरीरके दो टुकड़े हो गये। बिन्द प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा और सात्यकि उसे मारकर तुरंत ही युधामन्युके रथपर चढ़ गया। इसके बाद एक दूसरा रथ विधिपूर्वक सजाकर लाया गया। सात्यकि उसपर सवार हुआ और पुनः अपने सायकोंसे केकय-सेनाका संहार करने लगा। उसकी मार साकर केकयोंकी सेना ठहर न सकी। वह अपने प्रबल शत्रुका सामना करना छोड़ सब दिशाओंमें भाग गयी।

तदनन्तर श्रुतकर्मनि क्रोधमें भरकर पचास बाणोंसे राजा चित्रसेनको घायल किया। अभिसारनरेश चित्रसेनने भी नौ बाणोंसे श्रुतकर्मको बाँधकर पाँच सायकोंसे उसके सारथिको भी पीड़ित किया। तब श्रुतकर्मनि चित्रसेनके मर्मस्थानमें तीखे नाराचसे वार किया। उसकी गहरी चोट लगनेसे वीरवर चित्रसेनको मूर्च्छा आ गयी। थोड़ी देरमें जब होश हुआ तो उसने एक भल्ल मारकर श्रुतकर्माका धनुष काट दिया और फिर सात बाणोंसे उसे भी बाँध डाला। श्रुतकर्माको पुनः क्रोध चढ़ आया, उसने शत्रुके धनुषके दो टुकड़े कर डाले और तीन सौ बाण मारकर उसे खूब घायल किया। फिर एक तेज किये हुए भालेसे चित्रसेनका मस्तक काट गिराया। अभिसारनरेश चित्रसेन मारा गया—यह देखकर उसके सैनिक श्रुतकर्मापर दूट पड़े। परंतु उसने अपने सायकोंकी मारसे उन सबको पीछे हटा दिया।

दूसरी ओर प्रतिविन्ध्यने चित्रको पाँच बाणोंसे घायल करके तीन सायकोंसे उसके सारथिको बाँध दिया और एक बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली। तब चित्रने उसकी बाँहों और छातीमें नौ भल्ल मारे। यह देख प्रतिविन्ध्यने उसका धनुष काट दिया और पच्चीस बाणोंसे उसे भी घायल किया। फिर चित्रने भी प्रतिविन्ध्यपर एक भयंकर शक्तिका प्रहार किया, किन्तु उसने उस शक्तिको हँसते-हँसते काट दिया। तब उसने प्रतिविन्ध्यपर गदा चलायी। उस गदाने प्रतिविन्ध्यके घोड़े और सारथिको भीतके घाट उतार उसके रथको भी चकनाचूर कर दिया। प्रतिविन्ध्य पहलेसे ही क्रुद्धकर पृथ्वीपर आ गया था, उसने चित्रपर शक्तिका प्रहार किया। शक्तिको अपने ऊपर आते देख चित्रने उसे हाथसे पकड़ लिया और पुनः प्रतिविन्ध्यपर ही चलाया। वह शक्ति प्रतिविन्ध्यकी दाहिनी भुजापर चोट करती हुई भूमिपर जा पड़ी। इससे

प्रतिविन्ध्यको बड़ा क्रोध हुआ, उसने चित्रको मार डालनेकी इच्छासे तोमरका प्रहार किया। वह तोमर उसकी छाती



और कबच छेड़ता हुआ जमीनमें धुस गया तथा राजा चित्र अपनी बाँहें फेंकाकर भूमिपर वह पड़ा।

चित्रको मारा गया देख आपके सैनिकोंने प्रतिविन्ध्यपर बड़े वेगसे धावा किया, परंतु उसने अपने सायक-समूहोंकी वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया। उस समय, जब कि कौरव-सेनाके समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल अश्वत्थामा ही महाबली भीमसेनका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा। फिर उन दोनोंमें घोर संग्राम होने लगा।

अश्वत्थामाने पहले एक बाण मारकर भीमसेनको बाँध दिया। फिर नव्वे बाणोंसे उनके मर्मस्थानोंमें आघात किया। तब भीमसेनने भी एक हजार बाणोंसे द्रोणपुत्रको आच्छादित करके सिहके समान गर्जना की। किन्तु अश्वत्थामाने अपने सायकोंसे भीमसेनके बाणोंको रोक दिया और मुसकराते हुए उसने भीमके ललाटमें एक नाराच मारा। यह देख भीमने भी तीन नाराचोंसे अश्वत्थामाके ललाटको बाँध डाला। तब द्रोणकुमारने सौ बाण मारकर भीमसेनको पीड़ित किया, किन्तु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार भीमने भी अश्वत्थामाको तेज किये हुए सौ बाण मारे, परंतु वह डिंग न सका। सब उसने बड़े-बड़े

अस्त्रोंका प्रयोग आरम्भ किया और भीमसेन अपने अस्त्रोंसे उनका नाश करने लगे। इस तरह उन दोनोंमें भयंकर अस्त्र-युद्ध छिड़ गया। उस समय भीमसेन और अश्वत्थामाके छोड़े हुए बाण आपसमे टकराकर आपकी सेनाके चारों ओर सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रकाश फैला रहे थे। साथकोसे आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखायी देता था। बाणोंके टकरानेसे आग पैदा होकर दोनों सेनाओंको दग्ध कर रही थी। उन दोनों धीरोंका अद्भुत एवं अचिन्त्य पराक्रम देख सिद्ध और चारणोंके समुदायोंको बड़ा विस्मय हो रहा था। देवता, सिद्ध तथा बड़े-बड़े ऋषि उन दोनोंको

शाबासी दे रहे थे। वे दोनों महारथी सेपके समान जान पड़ते थे; वे बाणरूपी जलको धारण किये शस्त्ररूपी विजलीकी धमकसे प्रकाशित हो रहे थे और बाणोंकी बाँधारसे एक-दूसरेको ढके देते थे। दोनोंने दोनोंकी ध्वजा काटकर सारथि और घोड़ोंको बाँध डाला, फिर एक-दूसरेको बाणोंसे घायल करने लगे। बड़े धैर्यसे किये हुए परस्परके आघातसे जब वे अत्यन्त घायल हो गये तो अपने-अपने रथके पिछले भागमें गिर पड़े। अश्वत्थामाका सारथि उसे मूर्च्छित जानकर रणभूमिसे दूर हटा ले गया। भीमके सारथिने भी उन्हें अचेत जानकर ऐसा ही किया।

संशप्तकों और अश्वत्थामाके साथ अर्जुनका घोर संग्राम, अर्जुनके हाथसे दण्डधार और दण्डका वध

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! अर्जुनका संशप्तकों तथा अश्वत्थामाके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! मुनिये। संशप्तकोंकी सेना समुद्रके समान दुर्लभ्य थी, तो भी अर्जुनने उसमें प्रवेश कर तूफान-सा खड़ा कर दिया। वे तेज किये हुए बाणोंसे कौरववीरोंके मस्तक काट-काटकर गिराने लगे। योद्धा हीं देरमे वहाँकी जमीन पट गयी और वहाँ पड़े हुए ढेर-के-ढेर मस्तक बिना नालके कमल-जैसे दिखायी देने लगे। हजारों बाणोंकी वर्षा करके उन्होंने रथों, हाथियों और घोड़ोंको उनके सवारों-सहित धमलोक भेज दिया। तीनों बाण मार-मारकर शत्रुओंके सारथि, ध्वजा, धनुष, बाण तथा रत्नजटित मुद्रिकासे सुशोभित हाथियोंको भी काट गिराया। यह देख बड़े-बड़े योद्धा ताँडोंके समान हँकारते हुए अर्जुनपर टूट पड़े और तोते तीरोंसे उन्हें घायल करने लगे। उस समय अर्जुन और उन योद्धाओंमें रोमाञ्चकारी संग्राम आरम्भ हो गया। अर्जुनपर सब ओरसे अस्त्रोंकी वर्षा हो रही थी, तो भी वे अपने अस्त्रोंसे उसका निवारण करके बाणोंसे मार-मारकर शत्रुओंके प्राण लेने लगे। जैसे हवा बादलोंको छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वे विपशियोके रथोंकी घञ्जियाँ उड़ा रहे थे।

उस समय अर्जुन अकेले होनेपर भी एक हजार महारथियोंके समान पराक्रम दिखा रहे थे। उनका यह पुरापाथ देख देवता, सिद्ध, ऋषि और चारण भी उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओंने दुर्दुर्लभ वज्राधी और अर्जुन तथा श्रीकृष्णपर फूलोंकी वर्षा की। फिर वहाँ इस प्रकार आकाशवाणी हुई—'जिन्होंने चन्द्रमादी कान्ति, अग्निकी

दीप्ति, वायुका बल और सूर्यका प्रताप धारण किया है, वे ही वे श्रीकृष्ण और अर्जुन रणभूमिमे विराज रहे हैं। एक रथपर बैठे हुए वे दोनों वीर बहूा तथा शंकरकी भाँति अजेय हैं। वे सम्पूर्ण प्राणियोंसे श्रेष्ठ नर और नारायण हैं।'

इस आश्चर्यमय वृत्तान्तको देख और मुनकर भी अश्वत्थामाने युद्धके लिये भलीभाँति तैयार हो श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर धावा किया। उसने श्रीकृष्णको साठ तथा अर्जुनको तीन बाण मारे। तब अर्जुनने श्रेष्ठमें भरकर तीन बाणोंसे उसका धनुष काट दिया। यह देख उसने दूसरा अत्यन्त भयंकर धनुष हाथमें लिया और श्रीकृष्णपर तीन सौ तथा अर्जुनपर एक हजार बाणोंका प्रहार किया। इतना ही नहीं, अश्वत्थामाने अर्जुनको आगे बढ़नेसे रोककर उनके ऊपर हजारों, सारों और अरदों बाण बरसाये। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके तरकस, धनुष, प्रत्यञ्चा, रथ, ध्वजा तथा कवचसे और बाँह, हाथ, छाती, मूँह, नाक, कान, आँसू तथा मस्तक आदि अङ्गों एवं रोम-रोमसे बाण छूट रहे हैं। इस प्रकार अपने साथकसमूहोंकी वीरारसे उत्तने श्रीकृष्ण और अर्जुनकी बाँध डाला और अत्यन्त प्रसन्न होकर महामेघके समान भयंकर गर्जना की।

अश्वत्थामाकी गर्जना सुनकर अर्जुनने उसके चतारोंसे हुए प्रत्येक बाणके तीन-तीन टुकड़े कर दाने। इसके बाद उन्होंने संशप्तकोंके रथ, हाथों, घोड़े, सारथि, ध्वजा और पंख तिसाहियोंको भयंकर बाणोंसे मारना आरम्भ किया। गाण्डीयसे छूटे हुए नाना प्रकारके बाण तीन मीतपर गड़े हुए हाथों और मनुष्योंको भी मार गिराते थे। अर्जुनने शत्रुओंके बहुतेके सजे-सजाये घृष्टसहा

पंदन सैनिकोंका मकाया कर टाला । गजुओंमें जो लोग रणमें पीठ दिखाकर भाग नहीं गये, बराबर मानने दटे रहे, उनके धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यञ्चा, हाथ, बांह, हाथके हाथियार, छत्र, ध्वजा, घोड़े, रथकी ईषा, टाल, कवच और मस्तकको अर्जुनने काट टाला । पार्थके बाणोंके प्रहारसे रथ, घोड़े और हाथियोंके साथ उनके सवार भी घरागार्य हो गये ।


यह देख अङ्ग, बङ्ग, कनिङ्ग और निपाट देशोंके वीर अर्जुनको मार टाननेकी इच्छामें हाथियोंपर सवार हो वहाँ चढ़ आये । किन्तु अर्जुनने उनके हाथियोंके कवच, मर्मस्थान, स्रुट, महावन, ध्वजा और पताका आदिकी काट टाला । इसमें वे हाथी वस्त्रके मारे हुए पर्वतगिरिकी भाँति जमीनपर दह पड़े । इसी बीचमें अश्वत्थामाने अपने धनुषपर दस बाण चढ़ाये और मानो एक ही बाण छोड़ा हो, इस प्रकार उन दसोंकी एक ही साथ छोड़ दिया । उनमेंसे पाँच बाणोंने तो अर्जुनको घायल किया और पाँचने श्रीकृष्णको धन-विक्षत कर दिया । उन दोनोंके शरीरसे घूनकी धारा बहने लगी । उनका इस प्रकार पराभव देखकर सबने यही माना कि अब वे मारे गये ।

उस समय भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘अर्जुन ! दिनाई क्यों कर रहे हो; मारो इसे । जैसे चिकित्सा न करनेपर रोग बढ़कर कष्टदायक हो जाता है, उसी प्रकार लापरवाही करनेसे यह शत्रु भी प्रबल होकर महान् दुःखदायी हो जायगा ।’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर अर्जुनने भगवान्की आज्ञा स्वीकार की और सावधान होकर उन्होंने अश्वत्थामाकी बांह, छाती, सिर और जङ्घाकी बाणोंसे छेद टाला । फिर घोड़ोंकी बागडोर काटकर उन्हें बाणोंसे बाँधना आरम्भ किया । घोड़े घबराकर भागे और अश्वत्थामाको रणभूमिसे दूर हटा ले गये । अश्वत्थामा अर्जुनके बाणोंसे इतना घायल हो चुका था कि फिर नीटकर उनसे लड़नेकी उसकी हिम्मत नहीं हुई । थोड़ी देरतक घोड़ोंकी रोककर उसने आगम किया और फिर कर्णकी सेनामें प्रवेग कर गया । नदनन्दर श्रीकृष्ण और अर्जुन संग्रजनोंका सामना करने चले दिये ।

उसी समय उत्तरकी ओर पाण्डवसेनामें बड़े जोरका आतनाद सुनायी पड़ा । वहाँ दण्डधार पाण्डवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका संहार कर रहा था । यह देख भगवान् कृष्णने रथकी नीटाकर उधर ही घुसा दिया और अर्जुनसे कहा—‘मगधदेशका राजा दण्डधार बड़ा पराक्रमी है, वह कहीं भी अपना सामी नहीं रखता । इसके पास गजुओंका संहार करनेवाला एक महान् गजराज है, इसे घृद्धकी उत्तम शिखा

मिली है और बल तो सबसे अधिक है ही । इनमेंसे किसी भी दृष्टिसे यह राजा भगवत्से कम नहीं है । पहले तुम इसीका संहार कर टालो, फिर संग्रजनोंकी मारना ।’ इतना कहकर भगवान्ने अर्जुनको दण्डधारके निकट पहुँचा दिया । वह काले नोहेके कवच पहने हुए घृद्धसवारों और पंदन सैनिकोंको अपने मदीन्मत्त गजराजके हाग गिराकर कुचलवा रहा था । वहाँ पहुँचते ही श्रीकृष्णकी वारह और अर्जुनकी सोलह बाण मारकर दण्डधारने उनके घोड़ोंको भी तीन-तीन बाणोंसे घायल किया । इसके बाद वह वारंवार हँसने और गजने लगा ।

तब अर्जुनने मल्लोंसे उसके धनुष-बाण, प्रत्यञ्चा और ध्वजाको काट दिया । इससे कुपित हो दण्डधारने श्रीकृष्ण और अर्जुनको घबराहटमें डालनेकी इच्छामें अपने मदीन्मत्त गजराजको उनको ओर वढ़ाया और तोमरोंसे उन दोनोंपर वार किया । यह देख पाण्डुनन्दन अर्जुनने तीन खुर चलाकर उसकी दोनों मुजाओं और मस्तकको एक ही साथ काट टाला, इसके बाद उसके हाथीको भी सौ बाण मारे । उनकी चोंटसे पीठित होकर हाथी जोर-जोरसे चिन्घाड़ने लगा और चक्कर काटता तथा लड़खड़ाता हुआ इधर-उधर भागने लगा । अन्तमें टोकर खाकर वह महावतके साथ ही गिरा और मर गया ।



युद्धमें दण्डधारके मारे जानेपर उसका भाई दण्ड श्रीकृष्ण और अर्जुनका वध करनेके लिये चढ़ आया। आते ही वह श्रीकृष्णको तीन और अर्जुनको तेज किये हुए पाँच तोमर मारकर भीषण गर्जना करने लगा। तब अर्जुनने उसकी दोनों बाँहें काट डालीं और उसके मस्तकपर एक अर्धचन्द्राकार बाण मारा। उसकी चोटसे दण्डका मस्तक कटक हाथीपरसे जमीनपर जा पड़ा। इसके बाद उन्होंने दण्डके हाथीकी भी

बाणोंसे विदीर्ण कर डाला। उनकी चोटसे अत्यन्त व्यथित होकर वह हाथी चिम्पाइता हुआ गिरकर मर गया। तत्पश्चात् दूसरे-दूसरे मोढ़ा भी उत्तम हाथियोंपर सवार होकर विजयकी इच्छासे चढ़ आये, परन्तु सव्यसाचीने औरोंकी भीति उन्हें भी भीतके घाट उतार दिया। फिर तो शत्रुकी बहुत बड़ी सेना भाग खड़ी हुई और अर्जुन संशप्तकोंका संहार करनेके लिये चल दिये।




अर्जुनके द्वारा संशप्तकोंका तथा अश्वत्थामाके हाथसे राजा पाण्डपका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज! अर्जुनने मङ्गल ग्रहकी भाँति वक्र और अतिवक्र गतिसे चलकर बहुसंख्यक संशप्तकोंका संहार कर डाला। अनेकों पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी अर्जुनके बाणोंकी मारसे अपना धर्म छोड़ बँटे, कितने ही चक्कर काटने लगे, कुछ भाग गये और बहुत-से गिरकर मर गये। उन्होंने भल्ल, क्षुर, अर्धचन्द्र तथा वत्सदन्त आदि अस्त्रोंसे अपने शत्रुओंके धोड़े, सारथि, ध्वजा, धनुष, बाण, हाथ, हायके हथियार, भूजाएँ और मस्तक काट मिराये।

अर्जुनपर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। परन्तु अर्जुनने अपने अस्त्रोंसे शत्रुओंको अस्त्रवर्षा रोक दी और सायकों की झड़ी लगाकर बहुत-से शत्रुओंका वध कर डाला।

उसी समय भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'अर्जुन! तुम खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इन संशप्तकोंका अन्त करके अब कर्णका वध करनेके लिये शीघ्र तैयार हो जाओ।' 'अच्छा, ऐसा ही करता हूँ—यह कहकर अर्जुनने शेष संशप्तकोंका संहार आरम्भ किया। अर्जुन इतनी शीघ्रतासे बाण हाथमें लेते, संधान करते और छोड़ते थे कि बहुत सावधानीसे देखनेवाले भी उनकी इन सब बातोंको देख नहीं पाते थे। अर्जुनका हस्तलाघव देख स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण भी आश्चर्यमें पड़ गये। उन्होंने अर्जुनसे कहा—'पाम! इस पृथ्वीपर दुर्योधनके कारण राजाओंका यह महाभयंकर संहार हो रहा है। आज तुमने जो पराक्रम किया है, वैसा स्वर्गमें केवल इन्द्रने ही किया था।' इस प्रकार बातें करते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन चल जा रहे थे, इतनेहीमें उन्हें दुर्योधनकी सेनाके पास शत्रु, द्रुपुभि, मेरी और पणव आदि याजोंकी आवाज सुनायी दी। तब श्रीकृष्णने घोड़ोंको बढ़ाया और यही पहुँचकर देला कि राजा पाण्डपके द्वारा दुर्योधनकी सेनाका विकट विघ्नस्त हुआ है। यह देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। राजा पाण्डप अस्त्रविद्या तथा धनुर्विद्यामें प्रयोग थे। उन्होंने अनेकों प्रकारके बाण मारकर शत्रु-समूदायका नाश कर डाला था। शत्रुओंके प्रधान-प्रधान वीरोंने उनपर जो-जो अस्त्र छोड़े थे, उन सबको अपने सायकोंसे काटकर वे उन वीरोंको यमलोक भेज चुके थे।

द्वारराट्टने कहा—सञ्जय! अब तुम मुझसे राजा पाण्डपके पराक्रम, अस्त्रविद्या, प्रभाव और बलका वर्णन करो।



इसी बीचमें उग्रयुधके पुत्रने तीन बाणोंसे अर्जुनको बाँध दिया। यह देख अर्जुनने उसका सिर धड़से अलग कर दिया। उस समय उग्रयुधके समस्त सैनिक भीषणमें भरकर

राज्यधने कहा—महाराज ! आप जिन्हें श्रेष्ठ महारथी मानते हैं, उन सबको राजा पाण्डव अपने पराक्रमके सामने चुन्छ गिनते थे । अपने साथ भीष्म और द्रोणकी समानता बतलाना भी उन्हें बरदाश्त नहीं होता था । श्रीकृष्ण और अर्जुनसे किसी भी बातमें वे अपनेको कम नहीं समझते थे । इस प्रकार पाण्डव समस्त राजाओं तथा सम्पूर्ण अस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ थे । वे कर्णकी सेनाका संहार कर रहे थे । उन्होंने सम्पूर्ण योद्धाओंको छिद्र-भिन्न कर दिया, हाथियों और उनके सवारोंको पताका, ध्वजा और अस्त्रोंसे हीन करके पादरक्षकोंसहित मार डाला । पुलिन्द, खस, वाह्लीक, निपाद, आन्ध्र, कुन्तल, दाक्षिणात्य और भोजदेशीय शूरवीरोंको शस्त्रहीन तथा कवचशून्य करके उन्होंने मौतके घाट उतार दिया । इस प्रकार उन्हें कौरवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका नाश करते देख अश्वत्थामा उनका सामना करनेके लिये आया । उसने राजा पाण्डवके ऊपर पहले प्रहार किया, तब उन्होंने एक कर्णो नामक बाण मारकर अश्वत्थामाको घोध डाला । इसके बाद अश्वत्थामाने मर्मस्थानोंको विदीर्ण कर देनेवाले अत्यन्त भयंकर बाण हाथमें लिये और राजा पाण्डवके ऊपर हँसते-हँसते उनका प्रहार किया । तत्पश्चात् उसने तेज की हुई धारवाले कई तीखे नाराच उठाये और पाण्डवपर उनका वशमी गतिसे* प्रयोग किया । परंतु पाण्डवने नौ तीखे बाण मारकर उन नाराचोंको फाट डाला और उसके पहियोंकी रक्षा करनेवाले योद्धाओंको भी मार डाला ।

अपने शत्रुकी यह फुर्ती देखकर अश्वत्थामाने धनुषको मण्डलाकार बना लिया और बाणोंकी वीछार करने लगा । आठ-आठ वल्लोंसे खींचे जानेवाले आठ गाड़ियोंमें जितने बाण लदे थे, उन सबको अश्वत्थामाने आधे पहरमें ही समाप्त कर दिया । उस समय उसका स्वरूप क्रोधसे भरे हुए यमराजके समान हो रहा था । जिन लोगोंने उसे देखा, वे प्रायः होश-हवास जो बँटे । अश्वत्थामाके चलाये हुए उन सभी बाणोंको पाण्डवने वायव्यास्त्रसे उड़ा दिया और उच्चस्वरसे गजंजा फी ।

तब द्रोणकुमारने उनकी ध्वजा फाटकर चारों घोड़ों और सारथिको यमलोक भेज दिया तथा अर्धचन्द्राकार बाणसे धनुष फाटकर रखी भी धज्जियाँ उड़ा दीं । उस समय यद्यपि महारथी पाण्डव रखते शून्य हो गये थे, तो भी

* वशमी गतिसे मारा हुआ बाण मस्तकको धड़से अलग कर देता है ।

अश्वत्थामाने उन्हें मारा नहीं । उनके साथ युद्ध करनेकी उसको इच्छा अभी बनी ही हुई थी । इसी समय एक महाबली गजराज बड़े वेगसे दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा, उसका सवार मारा जा चुका था । राजा पाण्डव हाथीके युद्धमें बड़े निपुण थे । उस पर्वतके समान ऊँचे गजराजको देखते ही वे उसकी पीठपर जा बैठे । उन्होंने हाथीको अंकुश मारकर आगे बढ़ाया और सिंहनाद करके द्रोणपुत्रके ऊपर एक अत्यन्त तेजस्वी तोमरका प्रहार किया । तोमरकी चोटसे अश्वत्थामाके सिरका सुवर्णमय मुकुट चूर-चूर होकर खनखनाता हुआ जमीनपर जा गिरा । अब तो क्रोधके भारे द्रोणकुमारके बदनमें आग लग गयी, उसने शत्रुको पीडा देनेवाले यमदण्डके समान भयंकर चौदह बाण हाथमें लिये । उनमेंसे पांच बाणोंसे तो उसने हाथीको पैरोंसे लेकर सूँड़तक



बौंध डाला, तीनसे राजाकी दोनों भुजाओं और मस्तकको फाट गिराया तथा शेष छः बाणोंसे पाण्डवके अनुयायी छः महारथियोंको यमलोक पठाया ।

इस प्रकार महाबली पाण्डवको मारकर जब अश्वत्थामाने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तो आपका पुत्र दुर्योधन अपने मित्रोंके साथ उसके पास आया और बड़ी प्रसन्नताके साथ उसने उसका स्वागत-सत्कार किया ।

अङ्गराजका वध, सहदेवके द्वारा दुःशासनकी तथा कर्णके द्वारा नकुलकी पराजय और कर्णद्वारा पाञ्चालों का संहार

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! आपके पुत्रकी आज्ञासे बड़े-बड़े हाथीसवार हाथियोंके साथ ही क्रोधमें भरकर घुट्टघुम्नको मार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर बढ़े । पूर्व और दक्षिण देशके रहनेवाले गजयुद्धमें कुशल जो प्रधान-प्रधान वीर थे, वे सभी उपस्थित थे । इनके सिवा अङ्ग, यङ्ग, पुण्ड्र, मगध, मैकल, कोसल, मद्र, दशार्ण, नियथ और कलिङ्गदेशीय योद्धा भी, जो हस्तियुद्धमें निपुण थे, वहाँ आये । वे सब लोग पाञ्चालोंकी सेनापर बाण, तोमर और नाराचोंकी वर्षा करते हुए आगे बढ़े ।

जहाँ आते वे घुट्टघुम्न उनके हाथियोंपर नाराचोंकी वर्षा करने लगा । प्रत्येक हाथीको उसने दस-दस, छः-छः और आठ-आठ बाणोंसे मारकर घायल कर दिया । उस समय घुट्टघुम्नको हाथियोंकी सेनासे घिर गया देख पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा तेज किये हुए अस्त्र-शस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहाँ आ पहुँचे और उन हाथियोंपर बाणोंकी बौछार करने लगे । नकुल, सहदेव, द्रौपदीके पुत्र, प्रभद्रक, सात्यकि, शिखण्डी तथा चेकितान—ये सभी वीर चारों ओरसे बाणोंकी झड़ी लगाने लगे ।



तब स्नेच्छोंने अपने हाथियोंको शत्रुओंकी ओर प्रेरित किया । वे हाथी अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए थे; इसलिये रथों, घोड़ों और मनुष्योंको सूँडोंसे लॉचकर पटक देते और पंरोसे दबाकर कुचल डालते थे । कितने ही योद्धाओंको उन्होंने दौंतीकी नोकसे चीर डाला और कितनोंको सूँडमें लपेटकर ऊपर फेंक दिया । दौंतीसे कुचले हुए जो लोग जमीनपर गिरते थे, उनकी मूर्त बड़ी भयानक हो जाती थी । इसी समय अङ्गराजके हाथीका सात्यकिसे सामना हुआ । सात्यकिने भयंकर वेगवाले नाराचसे हाथीके मर्मस्थानोंकी बौध डाला । हाथी वेदनासे मूर्च्छित होकर गिर पड़ा । अङ्गराज उसकी ओटमें अपने शरीरको छिपाये बँठा था, अब वह हाथीसे फूटना ही चाहता था कि सात्यकिने उसकी छातीपर भी नाराचसे प्रहार किया । चोटको न संभाल सकनेके कारण वह भी पृथ्वीपर गिर पड़ा । इसके बाद नकुलने यमदण्डके समान तीन नाराच हाथमें लिये और उनके प्रहारसे अङ्गराजको पीड़ित करके फिर ती बाणोंसे उसके हाथीको भी घायल किया । तब अङ्गराजने नकुलपर एक सी आठ तोमरोंका प्रहार किया, किंतु उसने प्रत्येक तोमरके तीन-तीन टुकड़े कर डाले और एक अर्धचन्द्राकार बाण मारकर उसके मस्तकको भी काट लिया । फिर तो वह स्नेच्छराज हाथीके साथ ही भूमिपर गिर पड़ा ।

इस प्रकार अङ्गदेशीय राजकुमारके मारे जानेपर वहाँके महावत क्रोधमें भर गये और हाथियोंसहित नकुलपर चढ़ आये । उनके साथ ही मैकल, उत्कल, कलिङ्ग, नियथ तथा ताम्रलिप्त आदि देशोंके योद्धा भी नकुलको मार डालनेकी इच्छासे उसपर बाणों और तोमरोंकी वर्षा करने लगे । उन सबके अस्त्रोंकी बौछारसे नकुलको टक गया देख पाण्डव, पाञ्चाल और सोमक क्षत्रिय बड़े क्रोधमें भरकर वहाँ आ पहुँचे । फिर तो पाण्डवपक्षके रथी वीरोंका उन हाथियोंके साथ घोर युद्ध होने लगा । उन्होंने बाणोंकी झड़ी लगा दी और हजारों तोमरोंका वार किया । उनकी मारसे हाथियोंके कुम्भस्थल फूट गये, मर्मस्थानोंमें घाव हो गया, दौंत टूट गये और उनकी सारी सजावट बिगड़ गयी । उनमेंसे आठ बड़े-बड़े गजराजोंको सहदेवने चीरछ बाण मारे, जिनकी चोटसे पीड़ित हो वे हाथी अपने सवारोंसहित गिरकर मर गये ।

महाराज ! सहदेव जब क्रोधमें भरकर आपकी सेनाको मस्तकत्त कर रहा था, उसी समय शासन उसके

सञ्जयने कहा—महाराज ! आप जिन्हें श्रेष्ठ महारथी मानते हैं, उन सबको राजा पाण्डव अपने पराक्रमके सामने तुच्छ गिनते थे । अपने साथ भीष्म और द्रोणकी समानता बतलाना भी उन्हें बरदाशत नहीं होता था । श्रीकृष्ण और अर्जुनसे किसी भी बातमें वे अपनेको कम नहीं समझते थे । इस प्रकार पाण्डव समस्त राजाओं तथा सम्पूर्ण अस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ थे । वे कर्णकी सेनाका संहार कर रहे थे । उन्होंने सम्पूर्ण योद्धाओंको छिन्न-भिन्न कर दिया, हाथियों और उनके सवारोंको पताका, ध्वजा और अस्त्रोंसे हीन करके पादरक्षकोंसहित मार डाला । पुलिन्द, खस, बाह्लीक, निपाद, आन्ध्र, कुन्तल, दाक्षिणात्य और भोजदेशीय शूरवीरोंको शस्त्रहीन तथा कबचशून्य करके उन्होंने मौतके घाट उतार दिया । इस प्रकार उन्हें कौरवोंकी चतुरङ्गी सेनाका नाश करते देख अश्वत्थामा उनका सामना करनेके लिये आया । उसने राजा पाण्डवके ऊपर पहले प्रहार किया, तब उन्होंने एक कर्णा नामक बाण मारकर अश्वत्थामाको बंध डाला । इसके बाद अश्वत्थामाने मर्मस्थानोंको विदीर्ण कर देनेवाले अत्यन्त भयंकर बाण हाथमें लिये और राजा पाण्डवके ऊपर हँसते-हँसते उनका प्रहार किया । तत्पश्चात् उसने तेज की हुई धारवाले कई तीखे नाराच उठाये और पाण्डवपर उनका दशमी गतिसे* प्रयोग किया । परंतु पाण्डवने नीं तीखे बाण मारकर उन नाराचोंको काट डाला और उसके पहियोंकी रक्षा करनेवाले योद्धाओंको भी मार डाला ।

अपने शत्रुकी यह फुर्ती देखकर अश्वत्थामाने धनुषको मण्डलाकार बना लिया और बाणोंकी वीछार करने लगा । आठ-आठ बलोंसे खोंसे जानेवाले आठ गाड़ियोंमें जितने बाण लदे थे, उन सबको अश्वत्थामाने आधे पहरमें ही समाप्त कर दिया । उस समय उसका स्वरूप क्रोधसे भरे हुए यमराजके समान हो रहा था । जिन लोगोंने उसे देखा, वे प्रायः हीम-ह्यास खो बैठे । अश्वत्थामाके चलाये हुए उन सभी बाणोंको पाण्डवने चापव्यास्त्रसे उड़ा दिया और उच्चस्वरसे गर्जना की ।

तब द्रोणकुमारने उनकी ध्वजा काटकर चारों घोड़ों और सारथिको यमलोक भेज दिया तथा अर्धचन्द्राकार बाणसे धनुष काटकर रथकी भी धज्जियाँ उड़ा दीं । उस समय यद्यपि महारथी पाण्डव रथसे शून्य हो गये थे, तो भी

* दशमी गतिसे मारा हुआ बाण मस्तकको धड़से अलग कर देता है ।

अश्वत्थामाने उन्हें मारा नहीं । उनके साथ युद्ध करनेकी उसकी इच्छा अभी बनी ही हुई थी । इसी समय एक महाबली गजराज बड़े वेगसे दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा, उसका सवार मारा जा चुका था । राजा पाण्डव हाथीके युद्धमें बड़े निपुण थे । उस पर्वतके सनान ऊँचे गजराजको देखते ही वे उसकी पीठपर जा बैठे । उन्होंने हाथीको अंकुश मारकर आगे बढ़ाया और सिहनाद करके द्रोणयुद्धके ऊपर एक अत्यन्त तेजस्वी तोमरका प्रहार किया । तोमरकी चोटसे अश्वत्थामाके सिरका सुवर्णमय मुकुट चूर-चूर होकर खनखनाता हुआ जमीनपर जा गिरा । अब तो क्रोधके मारे द्रोणकुमारके वदनमें आग लग गयी, उसने शत्रुको पीडा देनेवाले यमदण्डके समान भयंकर चौदह बाण हाथमें लिये । उनमेंसे पाँच बाणोंसे तो उसने हाथीको पैरोंसे लेकर सँड़तक



बंध डाला, तीनसे राजाकी दोनों भुजाओं और मस्तकको काट गिराया तथा शेष छः बाणोंसे पाण्डवके अनुयायी छः महारथियोंको यमलोक पठाया ।

इस प्रकार महाबली पाण्डवको मारकर जब अश्वत्थामाने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तो आपका पुत्र दुर्योधन अपने मित्रोंके साथ उसके पास आया और बड़ी प्रसन्नताके साथ उसने उसका स्वागत-सत्कार किया ।

अङ्गराजका वध, सहदेवके द्वारा दुःशासनकी तथा कर्णके द्वारा नकुलकी पराजय और कर्णद्वारा पाञ्चालों का संहार

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! आपके पुत्रकी आत्मासे बड़े-बड़े हाथीसवार हाथियोंके साथ ही शोधमें भरकर धृष्टद्युम्नको मार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर बढ़े । पूर्व और दक्षिण देशके रहनेवाले गजयुद्धमें कुशल जो प्रधान-प्रधान घोर थे, वे सभी उचरस्थित थे । इनके सिवा अङ्ग, यङ्ग, पुण्ड्र, मगध, मेकल, कोसल, मद्र, दशार्ण, निषध और कलिङ्गदेशीय योद्धा भी, जो हस्तियुद्धमें निपुण थे, वहाँ आये । ये सब लोग पाञ्चालोंकी सेनापर बाण, तोमर और नाराचोंकी वर्षा करते हुए आगे बढ़े ।

उन्हें आते देव धृष्टद्युम्न उनके हाथियोंपर नाराचोंकी वर्षा करने लगा । प्रत्येक हाथीको उसने दस-दस, छः-छः और आठ-आठ बाणोंसे मारकर घायल कर दिया । उस समय धृष्टद्युम्नकी हाथियोंकी सेनासे घिर गया देख पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा तेज किये हुए अस्त्र-शस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहाँ आ पहुँचे और उन हाथियोंपर बाणोंकी बौछार करने लगे । नकुल, सहदेव, द्रौपदीके पुत्र, प्रमदक, सात्यकि, शिशुपदी तथा वैकिन्तान—ये सभी घोर चारों ओरसे बाणोंकी ऋङ्गी लगाते लगे ।



तब म्लेच्छोंने अपने हाथियोंकी शत्रुओंकी ओर प्रेरित किया । वे हाथी अत्यन्त शोधमें भरे हुए थे; इसलिये रथों, घोड़ों और मनुष्योंको भूँडोंसे खींचकर पटक देते और परोसे दबाकर कुचल डालते थे । कितने ही योद्धाओंको उन्होंने दाँतोंकी नोकसे चौर डाला और कितनोंको सूँडमें लपेटकर ऊपर फेंक दिया । दाँतोंसे कुचले हुए जो लोग जमीनपर गिरते थे, उनको मूरत बड़ी भयानक हो जाती थी । इसी समय अङ्गराजके हाथीका सात्यकिसे सामना हुआ । सात्यकिने भयंकर वेगवाले नाराचसे हाथीके मर्मस्थानोंको बौध डाला । हाथी वेदनासे मूँच्छत होकर गिर पड़ा । अङ्गराज उसकी ओटमें अपने शरीरको छिपाये बँठा था, अब वह हाथीसे कूदना ही चाहता था कि सात्यकिने उसकी छातीपर भी नाराचसे प्रहार किया । साटकी न संसामत सकनेके कारण वह भी पृथ्वीपर गिर पड़ा । इसके बाद नकुलने धमदण्डके समान तीन नाराच हाथ्यमें लिये और उनके प्रहारसे अङ्गराजकी पीडित करके फिर सौ बाणोंसे उसके हाथीको भी घायल किया । तब अङ्गराजने नकुलपर एक ही आठ तोमरोंका प्रहार किया, किन्तु उसने प्रत्येक तोमरके तीन-तीन टुकड़े कर डाले और एक अर्धघन्टाकार बाण मारकर उसके मस्तकको भी काट लिया । फिर तो वह म्लेच्छराज हाथीके साथ ही भूमिपर गिर पड़ा ।

इस प्रकार अङ्गदेशीय राजकुमारके मारे जानेपर वहाँके महावत शोधमें भर गये और हाथियोंसहित नकुलपर चढ़ आये । उनके साथ ही मेकल, उत्कल, कलिङ्ग, निषध तथा ताम्रलिप्त आदि देशोंके योद्धा भी नकुलको मार डालनेकी इच्छासे उसपर बाणों और तोमरोंकी वर्षा करने लगे । उन सबके अस्त्रोंकी बौछारसे नकुलको ढक गया देख पाण्डव, पाञ्चाल और सोमक क्षत्रिय बड़े शोधमें भरकर वहाँ आ पहुँचे । फिर तो पाण्डवपक्षके रथी वीरोंका उन हाथियोंके साथ घोर युद्ध होने लगा । उन्होंने बाणोंकी ऋङ्गी लगा दी और हजारों तोमरोंका वार किया । उनकी मारसे हाथियोंके क्रुमस्त्यल फूट गये, मर्मस्थानोंमें घाव हो गया, दाँत टूट गये और उनकी सारी सजावट बिगड़ गयी । उनमेंसे आठ बड़े-बड़े गजराजोंको सहदेवने चौंसठ बाण मारे, जिनकी चोटसे पीडित हो वे हाथी अपने सवारोंसहित गिरकर मर गये ।

महाराज ! सहदेव जब शोधमें भरकर आपके सेनाको भस्मसात् कर रहा था, उसी समय दुःशासन उसके

मुकाबलेमें आ गया। आते ही उसने सहदेवकी छातीमें तीन बाण मारे। तब सहदेवने सत्तर नाराचोंसे दुःशासनको तथा तीनसे उसके सारथिको बाँध डाला। यह देख दुःशासनने सहदेवका धनुष काटकर उसकी छाती और भुजाओंमें तिहत्तर बाण मारे। अब तो सहदेवके क्रोधकी सीमा न रही, उसने बड़ी फुर्तसे दुःशासनके रथपर तलवारका चार किया। वह तलवार प्रत्यञ्चासहित उसके धनुषको काटकर जमीनपर गिर पड़ी। फिर सहदेवने दूसरा धनुष लेकर दुःशासनपर प्राणान्तकारी बाण छोड़ा, किन्तु उसने तीखी धारवाली तलवारसे उसके दो टुकड़े कर डाले और सहदेवकी घायल करके उसके सारथिको भी नौ बाण मारे। इससे सहदेवका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने कालके समान विकराल बाण हाथमें लेकर उसे आपके पुत्रपर चला दिया। वह बाण दुःशासनका कवच छेदकर शरीरको विदीर्ण करता हुआ जमीनमें धुस गया। इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया। यह देख सारथि तीखे बाणोंकी मार सहता हुआ अपने रथको रणभूमिसे दूर हटा ले गया।

इस प्रकार दुःशासनको परास्त करके सहदेवने दुर्योधनकी सेनापर दृष्टि डाली और उसका सब ओरसे संहार आरम्भ कर दिया। दूसरी ओर नकुल भी कौरव-सेनाको पीछे भगा रहा था। यह देख कर्ण क्रोधमें भरा हुआ वहाँ आया और नकुलको रोककर सामना करने लगा। उसने नकुलका धनुष काटकर उसे तीस बाणोंसे घायल किया। तब नकुलने भी दूसरा धनुष लेकर कर्णको सत्तर और उसके सारथिको तीन बाण मारे। फिर एक क्षुरप्रसे कर्णके धनुषको काटकर उसपर तीन सौ बाणोंका प्रहार किया। नकुलके द्वारा कर्णको इस तरह पीड़ित होते देख सभी रथियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ; देवता भी अत्यन्त विस्मित हो गये।

तदनन्तर कर्णने दूसरा धनुष उठाया और नकुलके गलेकी हँसलीपर पाँच बाण मारे। तब नकुलने भी सात बाणोंसे कर्णको बाँधकर उसके धनुषका एक किनारा काट गिराया। कर्णने पुनः दूसरा धनुष लिया और नकुलके चारों ओरकी दिशाएँ बाणोंसे आच्छादित कर दीं। किन्तु महारथी नकुलने कर्णके छोड़े हुए उन सभी बाणोंको काट डाला। उस समय सायकसमूहसे भरा हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें टिड्डियाँ छा रही हों। उन दोनोंके बाणोंसे आकाशका मार्ग रुक गया था, अन्तरिक्षकी कोई भी वस्तु उस समय जमीनपर नहीं पड़ती थी। उन दोनों महारथियोंके दिव्य बाणोंसे जब दोनों ओरकी सेनाएँ नष्ट होने लगीं तो सभी योद्धा उनके बाणोंके गिरनेके स्थानसे

दूर हट गये और दर्शकोंकी भाँति खड़े होकर तमाशा देखने लगे। जब सब लोग वहाँसे दूर हो गये तो वे दोनों महारथी परस्पर बाणोंकी बाँधारसे एक दूसरेको चोट पहुँचाने लगे। कर्णने हँसते-हँसते उस युद्धमें बाणोंका जाल-सा फैला दिया, उसने सैकड़ों और हजारों बाणोंका प्रहार किया। जैसे बादलोंकी घटा घिर आनेपर उसकी छायासे अन्धकार-सा हो जाता है, वैसे ही कर्णके बाणोंसे अँधेरा-सा छा गया। इसके बाद कर्णने नकुलका धनुष काट दिया और मुसकराते हुए उसके सारथिको भी रथसे मार गिराया। फिर तेज किये हुए चार बाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको तुरन्त यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात् अपने बाणोंकी मारसे उसने नकुलके दिव्य रथके तिलके समान टुकड़े करके उसकी धञ्जियाँ उड़ा दीं। पहियोंके रत्नकोंकी मारकर ध्वजा, पताका, गदा, तलवार, डाल तथा अन्य सामग्रियोंको भी नष्ट कर दिया।

रथ, घोड़े और कवचसे रहित हो जानेपर नकुलने एक भयानक परिघ उठाया, किन्तु कर्णने तीखे बाणोंसे उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। उस समय उसकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयीं और वह सहसा रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कर्णने हँसते-हँसते उसका पीछा किया और उसके गलेमें अपना धनुष डाल दिया। फिर वह कहने लगा—'पाण्डु-नन्दन ! अब बलवानोंके साथ युद्ध करनेका साहस न करना। जो तुम्हारे समान हों, उन्हींसे मिड़नेका हीसला करना चाहिये। माद्रोकुमार ! हार गये तो क्या हुआ ? लजाओ मत। जाओ, घरमें जाकर छिप रहो अथवा जहाँ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन हों, वहाँ चले जाओ।'

यह कहकर कर्णने नकुलको छोड़ दिया। यद्यपि उस समय कर्णके लिये नकुलको मारना सहज था, तो भी कुन्तीको दिये हुए वचनको याद करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया; क्योंकि कर्ण धर्मका ज्ञाता था। नकुलको इस पराजयसे बड़ा दुःख हुआ। वह उच्छ्वास लेता हुआ अत्यन्त संकोचके साथ जाकर युधिष्ठिरके रथपर बैठ गया।

इतनेमें सूर्यदेव आकाशके मध्यभागमें आ गये। उस दुपहरीमें सूर्यपुत्र कर्ण चारों ओर चक्रके समान घूमता हुआ पाञ्चालोंका संहार करने लगा। शत्रुओंके रथ टूट गये, ध्वजा-पताकाएँ कट गयीं, घोड़े और सारथि मारे गये तथा बहुतांके रथके धुरे खण्डित हो गये। कुछ ही देरमें पाञ्चालसेनाके रथी भागते देखे गये। हाथियोंके शरीर खूनसे लयपय हो गये। वे उन्मत्तकी भाँति इधर-उधर भागने लगे। ऐसा जान पड़ता था, मानो वे किसी बड़े भारी जंगलमें जाकर दावानलसे दग्ध हो गये हैं। उस समय हमें सब ओर कर्णके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे कटे अनेकों सिर,

भुजा और जंघाएँ दिखायी देती थीं। हंप्रामभूमिमें सञ्जय वीरोंपर कर्णकी बड़ी भीषण मार पड़ रही थी, तो भी पतङ्ग जैसे अग्निपर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्णकी ओर ही बढ़ते जा रहे थे। महारथी कर्ण जहाँ-तहाँ पाण्डव-सेनाओंको

भस्म कर रहा था; अतः क्षत्रियलोग उसे प्रत्यक्षात्तोन अग्निके समान समझकर उसके आगेसे भागने लगे। पाञ्चालवीरोंमेंसे भी जो थोड़ा भरनेसे बचे थे, वे सब मंदाग छोड़कर भाग गये।

उलूक-युयुत्सु, श्रुतकर्मा-शतानीक, शकुनि-मुत्तसोम और शिखण्डी-कृतवर्मां द्वन्द्वयुद्ध; अर्जुनके द्वारा अनेकों वीरोंका संहार तथा दोनों ओरकी सेनाओंमें घमासान युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन् ! एक ओर आपका पुत्र युयुत्सु कौरवोंकी भारी सेनाको खदेड़ रहा था। यह देखकर उलूक बड़ी फुत्तांसे उसके सामने आया। उसने क्रोधमें भरकर एक क्षुरप्रसे युयुत्सुका धनुष काट डाला और कर्णा बाणसे उसे भी घायल कर दिया। युयुत्सुने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और साठ बाणोंसे उलूकपर एवं तीनसे उसके सारथिपर धार करके फिर उसे अनेकों बाणोंसे घोंघ डाला। इसपर उलूकने युयुत्सुको बीस बाणोंसे घायल कर उसकी ध्वजाको काट डाला, एक भल्लसे उसके सारथिका तिर उड़ा दिया, चारों ओरोंकी धरासायी कर दिया और फिर पाँच बाणोंसे उसे भी घोंघ डाला। महाबली उलूकके प्रहारसे युयुत्सु बहुत ही घायल हो गया और एक दूसरे रथपर चढ़कर तुरंत ही वहाँसे भाग गया। इस प्रकार युयुत्सुको परास्त करके उलूक भटपट पाञ्चाल और सञ्जय वीरोंकी ओर चला गया।

दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मने शतानीकके रथ, सारथि और घोड़ोंको नष्ट कर दिया। तब महारथी शतानीकने क्रोधमें भरकर उस अरवहीन रथमेंसे ही आपके पुत्रपर एक गदा फेंकी। वह उसके रथ, सारथि और घोड़ोंको भस्म करके पृथ्वीपर जा पड़ी। इस प्रकार ये दोनों ही वीर रथहीन होकर एक-दूसरेकी ओर देखते हुए रणाङ्गणसे लिसक गये।

इसी समय शकुनिने अत्यन्त पंने बाणोंसे मुत्तसोमको घायल कर दिया। किन्तु इससे वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पिताके परम शत्रुको सामने देखकर उसे हजारों बाणोंसे आच्छादित कर दिया। किन्तु शकुनिने दूसरे बाण छोड़कर उसके सभी तीरोंको काट डाला। इसके बाद उसने मुत्तसोमके सारथि, ध्वजा और घोड़ोंको भी तिल-तिल करके काट डाला। तब मुत्तसोम अपना भेष्ट धनुष लेकर रथसे कूदकर पृथ्वीपर लड़ा हो गया और बाणोंकी वर्षा करके आपके सान्तेके रथको आच्छादित करने लगा।

किन्तु शकुनिने अपने बाणोंकी बीछारसे उन सब बाणोंको नष्ट कर दिया। फिर अनेकों तीले तीरोंसे उसने मुत्तसोमके धनुष और तरकसोंको भी काट डाला।

अब मुत्तसोम एक तलवार लेकर घ्रान्त, उद्घ्रान्त, आविद्ध, आप्लुत, प्लुत, सूत, सम्पात और समुदीर्ण आदि चौबह गतिपोंसे उसे सब ओर घुमाने लगा। इस समय उसपर जो बाण छोड़ा जाता था, उसे ही वह तलवारसे काट डालता था। इसपर शकुनिने अत्यन्त क्रुपित होकर उसपर सपोंके समान विपलें बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। परन्तु मुत्तसोमने अपने शस्त्रकौशल और पराक्रमसे उन सबको काट डाला। इसी समय शकुनिने एक पंने बाणसे उसकी तलवारके दो टुकड़े कर दिये। मुत्तसोमने अपने हाथमें रहे हुए तलवारके आधे भागको ही शकुनिपर लौंचकर मारा। वह उसके धनुष और धनुषको डोरीको काटकर पृथ्वीपर जा पड़ा। इसके बाद वह फुत्तांसे धृतकीतिके रथपर चढ़ गया तथा शकुनि भी एक दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकों शत्रुओंका संहार करता हुआ दूसरे स्थानपर पाण्डवोंकी सेनाके साथ संग्राम करने लगा।

दूसरी ओर शिखण्डी कृतवर्मासे भिड़ा हुआ था। उसने उसकी हँसलीमें पाँच तीक्ष्ण बाण मारे। इसपर महारथी कृतवर्माने क्रोधमें भरकर उसपर साठ बाण छोड़े और फिर हँसते-हँसते एक बाणसे उसका धनुष काट डाला। महाबली शिखण्डीने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और उससे कृतवर्मापर अत्यन्त तीक्ष्ण नव्वे बाण छोड़े। ये उसके कवचसे टकराकर नीचे गिर गये। तब उसने एक पंने बाणसे कृतवर्माका धनुष काट डाला तथा उसकी छाती और भुजाओंपर अस्सी बाण छोड़े। इससे उसके सब अङ्गोंसे रधिर बहने लगा। अब कृतवर्माने दूसरा धनुष उठाया और अनेकों तीले बाणोंसे शिखण्डीके कंधोंपर प्रहार किया। इस प्रकार वे दोनों वीर एक-दूसरेको घायल करके सोहृमुहान हो रहे थे तथा दोनों ही एक-दूसरेके प्राण सेनेपर लगे हुए थे।

इसी समय इतवमनि शिखण्डीका प्राणान्त करनेके लिये एक भयंकर बाण छोड़ा। उसकी चोटसे वह तत्काल मूर्च्छित हो गया और विह्वल होकर अपनी ध्वजाके डंडेके सहारे बैठ गया। यह देखकर उसका सारथि उसे सुरंत ही रणभूमिसे हटा ले गया। इससे पाण्डवोंकी सेनाके पैर उखड़ गये और वह इधर-उधर भागने लगी।

महाराज ! इस समय अर्जुन आपकी सेनाका संहार कर रहे थे। आपको ओरसे त्रिगर्त, शिबि, कौरव, शाल्व, संशप्तक और नारायणी सेनाके वीर उनसे टक्कर ले रहे थे। सत्यसेन, चन्द्रदेव, मित्रदेव, सुतञ्जय, सौश्रुति, चित्रसेन, मित्रवर्मा और भाइयोंसे घिरा हुआ त्रिगर्तराज—ये सभी वीर संग्रामभूमिमें अर्जुनपर तरह-तरहके बाणसमूहोंकी वर्षा कर रहे थे। योद्धालोग अर्जुनसे संकड़ों और हजारोंकी संख्यामें टक्कर लेकर लुप्त हो जाते थे। इसी समय उनपर सत्यसेनने तीन, मित्रदेवने तिरसठ, चन्द्रदेवने सात, मित्रवमनि तिहत्तर, सौश्रुतिने सात, शत्रुञ्जयने बीस और सुशामनि नौ बाण छोड़े। इस प्रकार संग्रामभूमिमें अनेकों योद्धाओंके बाणोंसे बिधकर अर्जुनने बदलेमें उन सभी राजाओंको घायल कर दिया। उन्होंने सात बाणोंसे सौश्रुतिकी, तीनसे सत्यसेनकी, बीससे शत्रुञ्जयकी, आठसे चन्द्रदेवकी, साँसे मित्रदेवकी, तीनसे भ्रुतसेनकी, नौसे मित्रवर्माकी और आठसे सुशामाकी बाँधकर अनेकों तीखे बाणोंसे शत्रुञ्जयकी मार डाला, सौश्रुतिका सिर धड़से अलग कर दिया, इसके बाद फौरन ही चन्द्रदेवको अपने बाणोंसे धमराजके घर भेज दिया और फिर पाँच-पाँच बाणोंसे दूसरे महारथियोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया।

इसी समय सत्यसेनने क्रोधमें भरकर श्रीकृष्णपर एक विशाल तोमर फेंका और बड़ी भीषण गर्जना की। वह तोमर उनकी दायीं भुजाको घायल करके पृथ्वीपर जा पड़ा। इस प्रकार श्रीकृष्णको घायल हुआ देख महारथी अर्जुनने अपने तीखे बाणोंसे सत्यसेनकी गति रोककर फिर उसका कुण्डलमण्डित विशाल मस्तक धड़से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पँने बाणोंसे मित्रवर्मापर आक्रमण किया तथा एक तीखे बत्सदन्तसे उसके सारथिपर चोट की। फिर महावली अर्जुनने संकड़ों बाणोंसे संशप्तकोंपर बार किया और उनमेंसे संकड़ों-हजारों वीरोंको घराशायी कर दिया। उन्होंने एक क्षुरप्रसे मित्रसेनका मस्तक उड़ा दिया और सुशामाकी हँसलीपर चोट की। इसपर सारे संशप्तक वीर उन्हें चारों ओरसे घेरकर तरह-तरहके शस्त्रोंसे पीड़ित करने लगे।



अब महारथी अर्जुनने ऐन्द्रास्त्र प्रकट किया। उसमेंसे हजारों बाण निकलने लगे, जिनकी चोटसे अनेकों राजकुमार, क्षत्रिय वीर और हाथी-घोड़े पृथ्वीपर लोट-पोट हो गये। इस प्रकार जब धनुर्धर धनञ्जय संशप्तकोंका संहार करने लगे तो उनके पैर उखड़ गये। उनमेंसे अधिकांश वीर पीठ दिखाकर भाग गये। इस प्रकार वीरवर अर्जुनने उन्हें रणाङ्गणमें परास्त कर दिया।

राजन् ! दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर बाणोंकी वर्षा कर रहे थे। उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधनने किया। धर्मराजने उसे देखते ही बाणोंसे बाँध डाला। इसपर दुर्योधनने नौ बाणोंसे युधिष्ठिरपर और एक मल्लसे उनके सारथिपर चोट की। तब तो धर्मराजने दुर्योधनपर तेरह बाण छोड़े। उनमेंसे चारसे उसके चारों घोड़ोंको मारकर पाँचवेंसे सारथिका सिर उड़ा दिया, छठसे उसकी ध्वजा काट डाली, सातवेंसे धनुषके टुकड़े कर दिये, आठवेंसे तलवार काटकर पृथ्वीपर गिरा दी और शेष पाँच बाणोंसे स्वयं दुर्योधनको पीड़ित कर डाला। अब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथसे कूद पड़ा। दुर्योधनको इस प्रकार विपत्तिमें पड़ा देखकर कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि योद्धा उसकी रक्षाके लिये आ गये। इसी समय सब पाण्डवलोग भी महाराज युधिष्ठिरकी घेरकर संग्राम-भूमिमें बढ़ने लगे। वस, अब दोनों ओरसे खूब संग्राम होने लगा। दोनों ही

पक्षके वीर वीरधर्मके अनुसार एक दूसरेपर प्रहार करते थे; जो कोई पीठ दिखाता था, उसपर कोई चोट नहीं करता था। राजन् ! इस समय योद्धाओंमें बड़ी मुश्किल-मुश्किली और हाया-म्याई हुई। वे एक-दूसरेके केश पकड़कर खींचने लगे। युद्धका जोर यहाँतक बढ़ा कि अपने-परायेका ज्ञान भी लुप्त हो गया। इस प्रकार जब धमासान युद्ध होने लगा तो योद्धा-सौग तरह-तरहके शस्त्रोंसे अनेक प्रकारसे एक-दूसरेके प्राण लेने लगे। रणभूमिमें सँकड़ों-हजारों कवच खड़े हो गये। उनके शस्त्र और कवच धूममें लयपय हो रहे थे। इस समय योद्धाओंको पछपि अपने-परायेका ज्ञान नहीं रहा था, तो भी

वे युद्धको अपना कर्तव्य समझकर विजयकी सालसाते बराबर जूझ रहे थे। उनके सामने अपना या पराया—जो भी आता, उसीका वे सफाया कर डालते थे। संग्रामभूमि दोनों ओरके वीरोंसे घनबला-सी रही थी तथा टूटें हुए रथ और मारे हुए हाथी, घोड़े एवं योद्धाओंके कारण अगम्य-सी हो गयी थी। यहाँ क्षणमें खूनकी नदी बहने लगती थी। कर्ण पाञ्चालोंका, अर्जुन विगतोंका और भीमसेन कीरव तथा गजारोही सेनाका संहार कर रहे थे; इस प्रकार तीसरे पहरतक यह कीरव और पाण्डव-सेनाओंका भीषण संहार चलता रहा।

दुर्योधन और कर्णका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्यकिके साथ संग्राम

राजा घृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! तुमने कहा कि युधिष्ठिरने महारथो दुर्योधनको रथहीन कर दिया था, सो उसके बाद उन दोनोंका किस प्रकार युद्ध हुआ ? इसके सिवा तीसरे पहरका रोमाञ्चकारी युद्ध भी कैसे-कैसे हुआ ? यह सब वृत्तान्त तुम मुझे सुनाओ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब दोनों ओरकी सेनाएँ आपसमें भिड़ गयीं तो आपका पुत्र एक दूसरे रथमें चढ़कर संग्रामभूमिमें आया। उसने अपने सारथिसे कहा, 'सूत ! चल, चल जल्दोसे; जहाँ राजा युधिष्ठिर है, वहाँ मुझे शीघ्र ले चल।' तब सारथि सुरत ही उस रथको हाँककर धर्मराजके सामने ले गया। दुर्योधनने कीरन ही एक पंने बाणसे उनका धनुष काट डाला। इसपर महाराज युधिष्ठिरने दूसरा धनुष लेकर दुर्योधनके धनुष और ध्वजाके टुकड़े कर दिये। तब दुर्योधनने भी दूसरा धनुष लेकर उगहें घायल कर डाला। इस प्रकार वे दोनों ही वीर अत्यन्त श्रेयमें भरकर एक दूसरेपर शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे, दोनों ही एक-दूसरेपर वार करनेका मौका देरने लगे, दोनों ही बाणोंकी चोटोंसे घायल हो गये तथा दोनों ही बार-बार सिंहके समान गर्जना और शङ्खध्वनि करने लगे। राजा युधिष्ठिरने तीन वर्यके समान वेगवान् और दुर्धर्ष बाणोंसे दुर्योधनको छातीपर चोट की। इसके बदलेमें आपके पुत्रने उगहें पाँच तीक्ष्ण बाणोंसे घायल कर दिया। इसके बाद उसने उनपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण तोहमयी शक्ति छोड़ी। उसे आते देत राजा युधिष्ठिरने तीन पंने बाणोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये तथा पाँच बाणोंसे दुर्योधनको भी घायल कर डाला। अब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेगसे धर्मराजकी ओर दौड़ा। यह देखकर उगहोंने आपके पुत्रपर एक अत्यन्त

देदीप्यमान शक्ति छोड़ी। उसने उसके कवचको तोड़कर छातीपर चोट पहुँचायी। इससे वह अत्यन्त व्याकुल होकर गिर पड़ा और मूर्च्छित हो गया। इसी समय भीमसेनने अपनी प्रतिज्ञा याद करके धर्मराजसे कहा, 'महाराज ! इसे आप न मारें।' यह सुनकर धर्मराज वहीसे हट गये।

अब आपके पक्षके योद्धा कर्णको आगे करके पाण्डव-सेनापर दूट पड़े और उनके साथ युद्ध करने लगे। कर्णने अनेको चमचमाते हुए बाण सात्यकिपर छोड़े। इसपर सात्यकिने कीरन ही उरें तथा उसके रथ, सारथि और घोड़ोंको अनेकों तीक्ष्ण तीरोसे छा दिया। कर्णको इस प्रकार सात्यकिके बाणोंसे व्यथित देख आपके पक्षके अनेकों अतिरथी हाथी, घोड़े, रथी और पदत सेनाएँ लेकर बोड़े। उनका सामना द्रुपदके पुत्र आदि अनेकों वीरोंने किया। इससे वहाँ हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकोंका बड़ा भारी संहार होने लगा।

इसी समय पुरुषप्रवर श्रीकृष्ण और अर्जुन अपने निर्यकर्मसे निपटकर तथा शास्त्रानुसार भगवान् शंकरका पूजन कर युद्धक्षेत्रमें आये। अर्जुनने गाण्डीव धनुष चढ़ाकर सारी दिशा-विदिशाओंको बाणोंसे व्याप्त कर दिया; शत्रुओंके अनेकों रथ, आयुध, ध्वजा और सारथियोंको नष्ट कर डाला तथा बहुत-से हाथी, महावत, पुंड्रसवार, घोड़े और पदतोंको यमराजके घर भेज दिया। यह देखकर राजा दुर्योधन अकेला ही बाणोंकी वर्षा करता अर्जुनपर दूट पड़ा। अर्जुनने सात बाणोंसे उसके धनुष, सारथि, ध्वजा और घोड़ोंको नष्ट करके एक बाणसे उसका छत्र काट डाला। इसके बाद ज्यों ही उगहोंने दुर्योधनपर एक नयाँ प्राणघातक बाण छोड़ा कि अश्वत्थामाने बीचहीमें उसने सात टुकड़े कर दिये। इसपर अर्जुनने अपने बाणोंसे अश्वत्थामाके

धनुष, रथ और घोड़ोंको नष्ट कर दिया तथा कृपाचार्यके प्रचण्ड क्रोधको भी दूक-दूक कर डाला। इसके बाद वे कृतवर्मके धनुष, ध्वजा और घोड़ोंको नष्ट करके तथा दुःशासनका भी धनुष काटकर कर्णके सामने आये। कर्ण भी फौरन ही सात्विकको छोड़कर अर्जुनके सामने आया और उन्हें तीन तथा श्रीकृष्णको बीस बाणोंसे घायल कर बार-बार बाणोंकी वर्षा करने लगा।

इतनेहीमें सात्विक भी आ गया। उसने कर्णपर पहले नित्यानवे और फिर सौ बाणोंसे चोट की। इसके बाद पाण्डवपक्षके अन्यान्य योद्धा भी कर्णपर बार करने लगे। युधामन्यु, शिखण्डी, शैब्यके पुत्र, प्रभद्रक वीर, उत्तमौजा, युयुत्सु, नकुल-सहदेव, धृष्टद्युम्न, चेदि, कर्षुप, मत्स्य और केकय देशके वीर तथा चेकितान और धर्मराज युधिष्ठिर-इन सभी शूरवीरोंने बहुत-सी बलवती सेना लेकर उसे चारों ओरसे घेर लिया तथा उसपर तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। परंतु कर्णने अपने पैंने बाणोंसे उस सारी

शस्त्रवृष्टिको छिन्न-भिन्न कर डाला। बात-की-बातमें कर्णकी अस्त्रशक्तिसे आक्रान्त होकर पाण्डवोंकी सेना शस्त्रहीन और घायल होकर भागने लगी। अर्जुनने हँसते-हँसते अपने अस्त्रोंसे कर्णके अस्त्रोंको नष्ट करके सम्पूर्ण दिशाओं, आकाश और पृथ्वीको बाणोंसे व्याप्त कर दिया। उनके बाण मूसल और परिघोंके समान गिर रहे थे तथा कोई शतघ्नी और बच्चोंके समान जान पड़ते थे।

इस प्रकार आपके और पाण्डवोंके पक्षके योद्धा विजयकी लालसासे युद्धमें जुटे हुए थे कि इसी समय सूर्यदेव अस्ताचलके शिखरपर जा पहुँचे। सब ओर अन्धकार फैलने लगा तथा बड़े-बड़े धनुर्धर अपने-अपने योद्धाओंके सहित छावनीकी ओर चलने लगे। कौरवोंको जाते देख विजयी पाण्डव भी अपने शिबिरोंको चल दिये। सब वीर बाजे-गाजेके साथ सिहनाद और गर्जना करते तथा अपने शत्रुओंकी हँसी एवं श्रीकृष्ण और अर्जुनकी स्तुति करते जाते थे। इस प्रकार उन्होंने छावनीमें जाकर रातभर विश्राम किया।

कर्णके प्रस्ताव और दुर्योधनके आग्रहसे शल्यका आनाकानीके बाद कर्णका सारथि बनना स्वीकार करना

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! इसके बाद दुर्योधनने क्या किया ? वह मन्दबुद्धि तो कर्णका सहारा पाकर पाण्डवोंको उनके पुत्र और श्रीकृष्णके सहित परास्त करनेका दम भरता था। किंतु बड़े ही खेदकी बात है कि कर्ण अपने पराक्रमसे संग्राममें पाण्डवोंसे पार नहीं पा सका। निःसंदेह जय-पराजय देवाधीन ही है। मान्म होता है, अब जूएका परिणाम समीप ही आ गया है। हाय ! इस दुर्योधनके कारण मुझे कांटके समान अनेकों तीव्रतर कष्ट सहने पड़ेंगे। मैं नित्यप्रति अपने पुत्रोंके ही मारे जाने और परास्त होनेकी बात सुनता रहा हूँ। क्या पाण्डवोंको रोकनेवाला हमारी सेनामें कोई भी वीर नहीं है ?


सञ्जयने कहा—राजन् ! जो पुरुष बीती हुई बातके लिये पीछेसे सोच-विचार करता है, उसका वह काम तो नहीं बनता; हाँ, चिन्ता उसे अवश्य खाती रहती है। अब आपको इस कार्यमें सफलता मिलनी तो बड़े दूरकी बात है; क्योंकि पहले जान-बूझकर भी आपने इसके औचित्य-अनौचित्यके विषयमें विचार नहीं किया। महाराज ! पाण्डवोंने तो आपसे बार-बार कहा था कि लड़ाई मत ठानिये, किंतु आपने मोहवश सुना ही नहीं। आपने पाण्डवोंके ऊपर बड़े-बड़े

जुल्म किये हैं। इस समय भी आपहीके कारण यह राजाओंका घोर संहार हो रहा है। परंतु जो बात बीत गयी, उसके विषयमें आप चिन्ता न करें। अब जिस प्रकार वह भयंकर संहार हुआ, वह सुनिये।

वह रात बीतनेपर कर्ण राजा दुर्योधनके पास आया और उससे कहने लगा, 'राजन् ! आज मेरी अर्जुनके साथ मुठभेड़ होगी; उसमें या तो मैं उस वीरका काम तमाम कर दूंगा या वह मुझे मार डालेगा। मैं इन्द्रकी दी हुई शक्ति खो बैठा हूँ; इसलिये आज अर्जुन अवश्य मेरे ऊपर धावा करेगा। अब जो कामकी बात है वह सुनिये। मेरे और अर्जुनके दिव्य अस्त्रोंका प्रभाव तो समान ही है; किंतु शत्रुके पराक्रमको कुचलनेमें, हाथकी सफाईमें, युद्धकौशलमें और अस्त्र-संचालनमें अर्जुन मेरे समान नहीं है। इसके अतिवा बल, वीर्य, विज्ञान, पराक्रम और निशाना साधनेमें भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा जो यह विजय नामका धनुष है, इसे विश्वकर्मनि इन्द्रके लिये बनाया था। इसीके द्वारा इन्द्रने दैत्योंपर विजय प्राप्त की थी। इन्द्रने यह श्रेष्ठ धनुष परशुरामजीको दिया था और उन्होंने मुझे दिया। यह परशुरामजीका दिया हुआ प्रचण्ड धनुष गाण्डीवसे भी बढ़कर

है। इसीके द्वारा परशुरामजीने इक्कीस बार पृथ्वीको जीता था। इसीसे अर्जुनके साथ मेरे दो हाथ होंगे। आज संग्रामभूमिमें विजयी वीर अर्जुनको धराशापी करके मैं आपकी और आपके बन्धु-बान्धवोंको आनन्दित कहूँगा। जिस प्रकार धर्ममें पूर्ण अनुराग रखनेवाले संपत्ती पुष्ट्यका कार्यमें सफलता पाना स्वामाविक ही है, उसी प्रकार ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं आपके लिये न कर सकूँ। परंतु जिस बातमें मैं अर्जुनसे कम हूँ, वह भी मुझे अवश्य बताने चाहिये। उसके धनुषकी डोरी दिव्य है, तरकस अक्षय हैं तथा उसके पास अग्निदेवका दिया हुआ दिव्य रथ है, जो किसी भी ओरसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसके सिवा उसके घोड़े मनुके समान वेगवान् हैं, ध्वजा भी दिव्य और दीपितमती है तथा उसपर बड़ा ही विस्मयमे डालनेवाला एक वानर बँटा हुआ है। इससे भी बढ़कर यह बात है कि जगत्की रचना करनेवाले स्वयं श्रीकृष्ण उसके सारथि और रक्षक हैं। इन सब बातोंकी मेरे पास कमी है; तो भी मैं अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। हमारे पक्षमें महाराज शल्य अवश्य श्रीकृष्णकी बराबरी कर सकते हैं। यदि वे मेरे सारथि बन जायें तो निश्चय ही आपकी विजय हो सकती है। अतः आप इन्हें मेरा सारथ्य करनेके लिये तैयार कर लीजिये। इसके सिवा कई छकड़े मेरे लिये बाण लेकर चलें तथा बढ़िया घोड़ोंसे जुते हुए कई उत्तम-उत्तम रथ मेरे पीछे-पीछे चलें, जिससे कि आवश्यकता होनेपर मैं तुरंत दूसरा रथ बदल सकूँ। महाराज शल्य श्रीकृष्णके समान ही अख-विद्याके मर्मज्ञ हैं। यदि वे मेरे सारथि हो जायें तो मेरा रथ श्रीकृष्णके रथसे भी बढ़ जाय। फिर तो इन्द्रके सहित देवताओंका भी मेरे सामने आनेका साहस नहीं होगा। बस, मैं आपसे इतना प्रवन्ध कराना चाहता हूँ। फिर मैं संग्रामभूमिमें जो काम करके दिखाऊँगा, वह आप देखेंगे ही। अजी! फिर तो जो भी पाण्डव वीर संग्राममें मेरे सामने आवेंगे, उन्हें मैं सर्वथा परास्त करके ही छोड़ूँगा।'

सञ्जयने कहा—जब कर्मने आपके पुत्रसे इस प्रकार कहा तो उसने प्रसन्न चित्तसे उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, 'कर्म! तुम्हारा जैसा विचार है, मैं बँसा ही कहूँगा। छकड़े तुम्हारे बाण लेकर चलेंगे तथा हम सब राजालोग तुम्हारे पीछे-पीछे चलेंगे।' राजन्! कर्मसे ऐसा कहकर आपका पुत्र बड़े विनयसे महारथी शल्यके पास गया और उनसे प्रेमपूर्वक कहने लगा, 'भद्रेश्वर! आप सत्यव्रत, महामाग और यशताओमें अग्रगण्य हैं। मैं सिर झुकाकर अत्यन्त विनयके साथ आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। आप अर्जुनके नाश और



मेरे हितके लिये केवल प्रेमके ही नाते कर्मका सारथ्य करना स्वीकार कर लीजिये। आपके सारथि बन जानेपर राधापुत्र कर्म मेरे शत्रुओंको परास्त कर देगा। आपके सिवा कर्मके घोड़ोंकी रास पकड़ने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप संग्राममें साक्षात् श्रीकृष्णके समान हैं। अतः जिस प्रकार त्रिपुर-युद्धके समय ब्रह्माजीने भगवान् शंकरकी सहायता की थी तथा जंसे श्रीकृष्ण सम्पूर्ण आपत्तियोंमें अर्जुनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्मकी रक्षा कीजिये। आरम्भमें ही शत्रुओंकी संख्यशक्ति कम होनेपर भी उन्होंने हमारी बहुत-सी सेनाको नष्ट कर डाला था, फिर इस समयकी तो बात ही क्या है? इसलिये अब आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे पाण्डवलोग मेरी रही-सही सेनाका संहार न कर सकें। पहले संग्रामभूमिमें अर्जुन इस प्रकार शत्रुओंका संहार नहीं कर सकता था, किन्तु अब श्रीकृष्णका साथ हो जानेसे ही उसकी इतनी शक्ति बढ़ गयी है। अब पाण्डवोंकी सेनामें आपके और कर्मके हिस्सेका ही भाग रह गया है, उसे आप कर्मके साथ मिलकर आज एक साथ नष्ट कर दीजिये। आप कोई ऐसी युक्ति कीजिये, जिससे पाण्डवल और सञ्जयोंके सहित बुन्तीके पुत्र शीघ्र ही नष्ट हो जायें। कर्म रथियोंमें श्रेष्ठ है और आप सारथियोंमें सर्वोत्तम हैं। आप दोनोंका-सा संयोग संसारमें न कभी हुआ है न होगा ही। जिस प्रकार श्रीकृष्ण सब अवस्थाओंमें

अर्जुनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्णकी रक्षा कीजिये। आपके सारथि वन जानेपर तो कर्ण इन्द्र और समस्त देवताओंके लिये भी अजेय हो जायगा, फिर पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है ?'

दुर्योधनकी यह बात सुनकर शल्य एकदम क्रोधमें भर गये। उनकी भौंहोंमें बल पड़ गये तथा हाथ बार-बार कांपने लगे। उन्हें अपने कुल, ऐश्वर्य, विद्या और बलका बड़ा गर्व था। इसलिये उन्होंने क्रोधसे आँखें लाल करके कहा, 'दुर्योधन ! अवश्य ही तुम या तो मेरा अपमान कर रहे हो या तुम्हें मेरे प्रति संदेह है। इसीसे तुम मुझे सारथिका काम करनेकी आज्ञा दे रहे हो। तुम कर्णको हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा करते हो। किंतु मैं उसे संग्राममें अपने समान नहीं समझता। तुम जो बड़-से-बड़ा वीर हो, उसे मेरे हिस्सेमें कर दो; मैं उसे संग्राममें जीतकर अपने घर चला जाऊँगा। अथवा आज मैं अकेला ही युद्ध करूँगा। तब तुम शत्रुओंका संहार करते समय मेरा पराक्रम देख लेना। जरा मेरी इन वज्रके समान मोटी और गंठीली भुजाओंको तो देखो तथा मेरे विचित्र धनुष, सर्पके सदृश बाण और सुवर्णपत्रसे भड़ी हुई गदापर तो दृष्टि डालो। मैं अपने तेजसे सारी पृथ्वीको फोड़ सकता हूँ, पर्वतोंको छिन्न-भिन्न कर सकता हूँ और समुद्रोंको सुखा सकता हूँ। इस प्रकार शत्रुओंका दमन करनेमें पूर्णतया समर्थ होनेपर भी तुम मुझे इस नीच सूतपुत्रके सारथ्यका काम करनेकी आज्ञा कैसे दे रहे हो ? मैं इस नीचकी अपेक्षा सभी प्रकार श्रेष्ठ हूँ, इसलिये उसका दासत्व करनेको कभी तैयार नहीं हो सकता। जो पुरुष प्रेमवश अपने आश्रित हुए किसी श्रेष्ठ व्यक्तिको नीच पुरुषके अधीन कर देता है, उसे उच्चको नीच और नीचको उच्च करनेका पाप लगता है। ब्रह्माने ब्राह्मणोंको अपने मुखसे, क्षत्रियोंको भुजाओंसे, वैश्योंको जंघाओंसे तथा शूद्रोंको पैरोंसे उत्पन्न किया है—ऐसा श्रुतिको मत है। इनमें क्षत्रियजाति सब वर्णोंकी रक्षा करनेवाली, सबसे कर लेनेवाली और दान देनेवाली है। ब्राह्मणोंका काम यज्ञ कराना, पढ़ाना और विशुद्ध दान लेना है। कृषि, गोपालन और धर्मानुसार दान देना वैश्योंका फर्म है तथा शूद्रलोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवाके काममें नियुक्त किये गये हैं। यह बात तो मैंने बिल्कुल नहीं सुनी कि क्षत्रिय शूद्रकी सेवा करे। मैंने राजर्षियोंके वंशमें जन्म लिया है, मेरे मस्तकपर शास्त्रानुसार राज्याभिवेक किया गया है, लोग मुझे महारथी कहते हैं और चन्दीजन मेरी स्तुति किया करते हैं। ऐसा होकर भी मैं सूतपुत्रका सारथ्य करूँ—यह मेरे वंशकी बात नहीं है। इस प्रकार

अपमानित होकर तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकूँगा। इसलिये अब मैं अपने घर जानेके लिये तुमसे आज्ञा माँगता हूँ।'

पुरुषोत्तम शल्य ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वहाँ जो राजा बैठे थे, क्रोधपूर्वक उनके बीचसे जाने लगे। तब आपके पुत्रने बड़े प्रेम और मानसे उन्हें रोका और बड़े मीठे



शब्दोंमें उन्हें समझाते हुए कहने लगा, 'राजन् ! आप अपने विषयमें जैसा समझते हैं, निःसंदेह यह बात ऐसी ही है। परंतु मेरे कथनका जो अभिप्राय है, जरा उसे भी सुननेकी कृपा करें। आपके पूर्वपुरुष सर्वदा सत्यभाषण ही करते रहे हैं; मैं समझता हूँ, इसीसे आप 'आर्त्तायनि' कहलाते हैं। तथा आप अपने शत्रुओंके लिये शल्य (काँटे) के समान हैं, इसीसे पृथ्वीतलमें 'शल्य' नामसे विख्यात हैं। आप धर्मज्ञ हैं और पहले मेरा प्रिय करनेका वचन दे चुके हैं; अतः अब अपने उसी वचनका पालन करनेकी कृपा कीजिये। आपकी अपेक्षा न तो कर्ण बलवान् है और न मैं ही हूँ; तो भी अश्व-विद्याके सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होनेके कारण मैं आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। कर्ण शस्त्रविद्यामें अर्जुनसे श्रेष्ठ है और आप अश्वविद्यामें श्रीकृष्णसे बड़-चढ़कर हैं।'

१. ऋत जिसका अयन (आश्रय) हो, उसे 'ऋतायन' कहते हैं। उसीके वंशमें उत्पन्न हुआ 'आर्त्तायनि' कहा जाता है।

इसपर राजा शल्यने कहा—'दुर्षोधन ! तू सब सेनाके सामने मुझे धीकृपणसे भी बड़कर बतारू रहे हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ । अच्छा तो, मैं कर्णका सारथ्य करना स्वीकार किये लेता हूँ । किन्तु कर्णके साथ मेरी एक

शर्त रहेगी । वह यह कि युद्धके समय मैं उससे चाहे जैसी बात कह सकूँगा; उसमें वह किसी प्रकारकी आपत्ति न करे । इसपर कर्ण और आपके पुत्रने 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर शल्यकी शर्त स्वीकार कर ली ।

त्रिपुरोकी उत्पत्ति और उनके नाशका प्रसङ्ग

दुर्षोधनने कहा—महाराज शल्य ! पूर्वकालमें महर्षि मार्कण्डेयने मेरे पिताजीसे एक उपाख्यान कहा था । यह सब क्या मैं आपको सुनाता हूँ । उसे सुनिये और मैंने जो प्रार्थना की है, उसके विषयमें किसी प्रकारका विचार न कीजिये ।

पहले तारकामय नामका एक संग्राम हुआ था । उसमें देवताओंने दैत्योंको परास्त कर दिया । उस समय तारक दैत्यके ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामके तीन पुत्र थे । उन्होंने कठोर नियमोंका पालन करते हुए बड़ी ही भोषण तपस्या की और अपने शरीरोंको ब्रिलकुल सुखा दिया । उनके संयम, तप, नियम और समाधिसे पितामह ब्रह्माजी प्रसन्न हो गये और उन्हें घर देनेके लिये पधारे । उन तीनों दैत्योंने सर्वलोकेश्वर श्रीब्रह्माजीको प्रणाम किया और उनसे कहा, 'पितामह ! आप हूँमें ऐसा घर दीजिये कि हम तीन नगरोंमें बँठकर इस सारी पृथ्वीपर आकाशमार्गसे विचरते रहें । इस प्रकार एक हजार वर्ष बीतनेपर हम एक जगह मिलें । उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जायें तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही वाणसे नष्ट कर सकें, वही हमारी मृत्युका कारण हो ।' इसपर श्रीब्रह्माजी 'ऐसा ही हो' यह कहकर अपने लोकको चले गये ।

ब्रह्माजीसे ऐसा घर पाकर वे दैत्य बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने आपसमें सलाह करके मयदानवके पास जाकर तीन नगर बनानेको कहा । भतिमान् मयने अपने तपके प्रभावसे तीन पुर तैयार किये । उनमें एक सोनेका, एक चाँदीका और एक लोहेका था । सोनेका नगर स्वर्गमें, चाँदीका अन्तरिक्षमें और लोहेका पृथ्वीमें रहा । ये तीनों ही नगर इच्छानुसार आ-आ सकते थे । इनसे प्रत्येककी लंबाई-चौड़ाई सौ-सौ योजन थी । इनमें आपसमें सटे हुए बड़े-बड़े भयन और सुखी हुई सड़कें थीं तथा अनेकों प्रासादों और राजद्वारोंसे इनकी बड़ी शोभा हुई रहती थी । इन नगरोंके अलग-अलग राजा थे । सुवर्णमय नगर तारकाक्षका था, रजतमय कमलाक्षका और लोहमय विद्युन्मालीका । इन तीनों दैत्योंने अपने शस्त्रबलसे तीनों लोकोंको अपने क्रावमें

कर लिया । इन दैत्योंके पास जहाँ-तहाँसे करोड़ों दानव योद्धा आकर एकत्रित हो गये । इन तीनों पुरोंमें रहनेवाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता, उसकी उस कामनाको ममासुर अपनी मायासे उसी समय पूरी कर देता था ।

तारकाक्षके हरि नामका एक महाबली पुत्र था । उसने बड़ी कठोर तपस्या की । इससे ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न हो गये । उन्हें संतुष्ट देखकर हरिने यह घर माँगा कि 'हमारे नगरमें एक ऐसी बावड़ी बन जाय कि जिसमें डालनेपर शस्त्रसे घायल हुए योद्धा और भी अधिक बलवान् हो जायें ।' इस प्रकार ब्रह्माजीसे घर पाकर तारकाक्षके पुत्र हरिने अपने नगरमें एक मूर्दोंको जोवित कर देनेवाली बावड़ी बनवायी । दैत्यलोग जिस रूप और जिस वेद्यमें मरते थे उस बावड़ीमें डालनेपर वे उसी रूप, उसी वेद्यमें जोवित होकर निकल आते थे । इस प्रकार उस बावड़ीको पाकर वे सारे लोकोंको कष्ट देने लगे तथा अपनी घोर तपस्यासे सिद्धि पाकर वे देवताओंके भयकी वृद्धि करने लगे । युद्धमें उनका किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता था । अब तो वे सोम और मोहसे अंधे होकर एकदम मतवाले हो गये । उन्होंने लम्बाकी एक ओर रख दिया और सब ओर लूट-मार करने लगे । वरदानके मदमें धूर होकर वे समय-समयपर जहाँ-तहाँ देवताओंको भगाकर स्वेच्छासे विचरने लगे । उन मर्षादाहीन दृष्ट दानवीने देवताओंके प्रिय उद्यान और श्रृंगियोंके पवित्र आश्रमोंको नष्ट-घ्रष्ट कर डाला ।

इस प्रकार जब सब लोक पीडित होने लगे तो मरुद्गणको साथ लेकर देवराज इन्द्रने चढ़ाई कर दी और उन नगरोपर वे सब ओर वज्र-प्रहार करने लगे । किन्तु जब वे ब्रह्माजीके बरके प्रभावसे उन अनेक नगरोंको तोड़नेमें समर्थ न हुए तो भयभीत होकर अनेकों देवताओंको साथ ले ब्रह्माजीके पास गये और उन्हें दैत्योंके कारण मिलनेवाले अपने कष्टोंकी कहानी सुनायी । इस प्रकार सारा हास सुनाकर उन्होंने प्रणाम करके ब्रह्माजीसे उनके वधका उपाय पूछा । देवताओंकी सब बातें सुनकर भगवान् ब्रह्माजीने कहा, 'जो दैत्य नमस्त्रियोंको बल दे रहा है, वह तो मेरा अपराध

करनेमें भी नहीं चूकता । इसमें संदेह नहीं, मैं सब प्राणियों-के लिये समान हूँ । परंतु मेरा नियम है कि अधर्मियोंका तो नाश ही करना चाहिये । इसके लिये उन तीनों नगरोंको एक ही बाणसे तोड़ना होगा । किन्तु इस कामको करनेमें श्रीमहादेवजीके सिवा और कोई समर्थ नहीं है । इसलिये तुम सब उनके पास जाकर यह वर माँगो । वे अवश्य उन दैत्योंको मार डालेंगे ।'

ब्रह्माजीको यह बात सुनकर इन्द्रादि सब देवता उन्हींके नेतृत्वमें श्रीमहादेवकी शरणमें गये । भगवान् शंकर अपने शरणापनोंको भयके समय अभयदान करनेवाले और सबके आत्मस्वरूप हैं । उनके पास जाकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे । तब उन्हें तेजोराशि पार्वतीपति श्रीमहादेवजीका दर्शन हुआ । सभीने पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और महादेवजीने आशीर्वादद्वारा सत्कार करके सबको उठाया । फिर वे मुसकराते हुए कहने लगे, 'कहो, कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है ?'

भगवान्की आज्ञा पाकर देवतालोग स्वस्थचित होकर कहने लगे, 'देवाधिदेव ! आपको नमस्कार है । प्रजापति भी आपको स्तुति करते हैं, और सबने भी आपकी स्तुति की है; आप सभीको स्तुतिके पात्र हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं । शम्भो ! हम आपको नमस्कार करते हैं । आप सबके आश्रयस्थान और सभीका संहार करनेवाले हैं । ऐसे ब्रह्मस्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं । आप सभीके अधीश्वर और नियन्ता हैं तथा वनस्पति, मनुष्य, गौ और यज्ञोंके पति हैं । हम आपको नमस्कार करते हैं । देव ! हम मन, वाणी और कर्मसे आपके शरणापन्न हैं; आप हमपर कृपा कीजिये ।'

तब भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर उनका स्वागत-सत्कार करते हुए कहा, 'देवगण ! भयको छोड़िये और वताइये, मैं आपका क्या काम करूँ ?'

इस प्रकार जब महादेवजीने देवता, ऋषि और पितृगणको अभयदान दिया तो ब्रह्माजीने उनका सत्कार करके संसारके हितके लिये कहा, 'सर्वेश्वर ! आपकी कृपासे इस प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवोंको एक महान् वर दे दिया था । उसके कारण उन्होंने सब प्रकारकी मर्यादा तोड़ दी है । अब आपके सिवा उनका और कोई भी संहार नहीं कर सकता । देवतालोग आपको शरणमें आकर यही प्रार्थना कर रहे हैं, सो आप इनपर कृपा कीजिये ।'

तब महादेवजीने कहा, 'देवताओं ! मैं धनुष-बाण धारण करके रथमें सवार हो संप्रामभूमिमें तुम्हारे शत्रुओंका संहार करूँगा । अतः तुम मेरे लिये एक ऐसा रथ और

धनुष-बाण तलाश करो, जिनके द्वारा मैं इन नगरोंको पृथ्वीपर गिरा सकूँ ।'

देवताओंने कहा—'देवेश्वर ! हम तीनों लोकोंके तत्त्वोंको जहाँ-तहाँसे इकट्ठे करके आपके लिये एक तेजोमय रथ तैयार करेंगे ।' ऐसा कहकर उन्होंने विश्वकर्मके रचे हुए एक विशाल रथको महादेवजीके लिये तैयार किया । उन्होंने विष्णु, चन्द्रमा और अग्निको बाण बनाया तथा बड़े-बड़े नगरोंसे भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपोंसे व्याप्त वसुंधराको ही उनका रथ बना दिया । इन्द्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपालोंको घोड़े बनाया एवं मनको आधार-भूमि बना दिया । इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ तैयार हो गया तो महादेवजीने उसमें अपने आयुध रखे । ब्रह्मदण्ड, कालदण्ड, रुद्रदण्ड और ज्वर—ये सब और मुख किये उस रथकी रक्षामें नियुक्त हुए; अथर्वा और अङ्गिरा उनके चक्ररक्षक बने; ऋग्वेद, सामवेद और समस्त पुराण उस रथके आगे चलनेवाले योद्धा हुए; इतिहास और धनुर्वेद पृष्ठरक्षक बने तथा दिव्यवाणी और विद्याएँ पार्श्वरक्षक बनीं । स्तोत्र तथा वपट्कार और ओङ्कार रथके अग्रभागमें सुशोभित हुए । उन्होंने छहों ऋतुओंसे सुशोभित संवत्सरको अपना धनुष बनाया तथा अपनी छायाको धनुषकी अखण्ड प्रत्यञ्चाके स्थानमें रक्खा ।

इस प्रकार रथको तैयार देख वे कवच और धनुष धारण कर विष्णु, सोम और अग्निसे बने हुए दिव्य बाणको लेकर युद्धके लिये तैयार हो गये । तब देवताओंने सुगन्धयुक्त वायुको उनके लिये हवा करनेको नियुक्त किया । तब महादेवजी समस्त युद्धसज्जासे सुसज्जित हो पृथ्वीको कम्पायमान करते रथपर सवार हुए । बड़े-बड़े ऋषि, गन्धर्व, देवता और अप्सराओंके समूह उनकी स्तुति करने लगे । इस समय भगवान् शंकर खड्ग, बाण और धनुष धारण करके बड़ी ही शोभा पा रहे थे । उन्होंने हँसकर कहा, 'मेरा सारथि कौन बनेगा ?' देवताओंने कहा, 'देवेश्वर ! आप जिसे आज्ञा देंगे, वही आपका सारथि बन जायगा—इसमें आप तनिक भी संदेह न करें ।' तब भगवान्ने कहा, 'तुम स्वयं ही विचार करके जो मुझसे श्रेष्ठ हो, उसे मेरा सारथि बना दो ।'

यह सुनकर देवताओंने पितामह ब्रह्माजीके पास जाकर उन्हें प्रसन्न करके कहा, 'भगवन् ! आपने हमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा हित फरूँगा, सो अपना वह वचन पूरा कीजिये । देव ! हमने जो रथ तैयार किया है, वह बड़ा ही दुर्घर्ष है; भगवान् शंकर उसके योद्धा नियुक्त किये गये हैं, पर्वतोंके सहित पृथ्वी ही रथ है तथा नक्षत्रमाला ही उसका वरुण है । किन्तु उसका कोई सारथि दिखायी नहीं देता ।

सारथि इन सबकी अपेक्षा बढ़-चढ़कर होना चाहिये; क्योंकि रथ तो उसीके अधीन रहता है। हमारी दृष्टिमें आपके सिवा और कोई भी इसका सारथि बनने योग्य नहीं है। आप सर्वगुणसम्पन्न और सब देवताओंमें श्रेष्ठ हैं। अतः अब आप ही रथपर बैठकर घोड़ोंकी रास संभालिये।' ब्रह्माजीने कहा—'देवताओ! तुम जो कुछ कहते हो, उसमें कोई बात मूठ नहीं है। अतः जिस समय भगवान् शंकर युद्ध करेंगे, मैं अवश्य उनके घोड़े हाँकूंगा।

तब देवताओंने सम्पूर्ण लोकोंके स्रष्टा भगवान् ब्रह्माजीको श्रीमहादेवजीका सारथि बनाया। जिस समय वे उस विश्ववन्द्य रथपर बैठे, उसके घोड़ोंने पृथ्वीपर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। परम तेजस्वी भगवान् ब्रह्माने रथपर चढ़कर घोड़ोंकी रास और कीड़ा संभाला और श्रीमहादेवजीसे कहा, 'देवश्रेष्ठ! रथपर सवार होइये।' तब भगवान् शंकर विष्णु, सोम और अग्निसे उत्पन्न हुआ बाण लेकर अपने धनुषसे शत्रुओंको कम्पायमान करते रथपर चढ़े। उस समय महर्षि, गन्धर्व, देवसमूह और अप्सराओंने उनकी स्तुति की। भगवान् शिव रथपर बैठकर अपने तेजसे तीनों लोकोंको देवीप्यमान करने लगे। उन्होंने इन्द्रादि देवताओंसे कहा, 'तुमसोप ऐसा संबेह मत करना कि यह बाण इन पुरोंको नष्ट नहीं कर सकेगा; अब तुम इस बाणसे इन असुरोंका अन्त हुआ ही समझो।'

देवताओंने कहा, 'आपका कथन विलकुल ठीक है। अब इन दैत्योंका अन्त हुआ हो समझना चाहिये। आपका वचन किसी प्रकार मिथ्या नहीं हो सकता।' इस प्रकार विचार करके देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद देवाधिदेव श्रीमहादेवजी उस विशाल रथपर चढ़कर सब देवताओंके साथ चले। उनके इस प्रकार कूच करनेपर सारा संसार और देवतालोग प्रसन्न हो गये। ऋषिगण अनेकों स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे और करोड़ों गन्धर्वगण तरह-तरहके बाजे बजाने लगे। अब भगवान् शंकरने मुसकराकर कहा, 'प्रजापते! चतिये; जिधर वे दैत्यगण हैं, उधर ही घोड़े बढ़ाइये।' तब ब्रह्माजीने अपने मन और धायुके समान घेगवान् घोड़ोंको दैत्य और दानवोंसे रक्षित उन तीनों पुरोंकी ओर बढ़ाया।

इस समय नन्दीरवरने बड़ी भारी गर्जना की, जिससे सारी दिशाएँ गूँज उठीं। उनका वह भीषण नाद सुनकर सारकामुरके अनेकों दैत्य नष्ट हो गये। उनके सिवा जो शेष रहे, वे युद्धके लिये उनके सामने आ गये। अब विशालपाणि भगवान् शंकरने श्रोत्रमें भरकर अपने धनुषपर रौंदा चढ़ाया

और उसपर बाण चढ़ाकर उसे पारापतास्त्रसे युक्त किया। फिर वे तीनों पुरोंके इकट्ठे होनेका चिन्तन करने लगे। इस प्रकार जब वे धनुष चढ़ाकर तैयार हो गये तो उसी समय तीनों नगर मिलकर एक हो गये। यह देखकर देवतालोग बड़ी हर्षयुक्त करने लगे तथा सिद्ध और महर्षियोंके सहित उनकी स्तुति करते हुए जय-जयकार करने लगे।

इस प्रकार जब असहृतेजस्वी भगवान् शंकर असुरोंका संहार करनेकी तैयारी कर रहे थे, उनके सामने तीनों पुर एकत्रित होकर प्रकट हुए। उन्होंने सुरत ही अपना दिव्य धनुष खींचकर उनपर वह त्रिलोकीका सारभूत बाण छोड़ा। उस बाणके छूटते ही तीनों पुर नष्ट होकर गिर गये। उस समय बड़ा ही आतंनाव हुआ। महादेवजीने उन असुरोंको भस्म करके पश्चिम समुद्रमें डाल दिया। इस प्रकार त्रिलोकहितकारी भगवान् शिवने कुपित होकर उस त्रिपुरका दाह किया और दैत्योंको निर्मूल कर दिया। फिर अपने क्रोधसे उत्पन्न हुई अग्निको रोककर उन्होंने कहा, 'तू त्रिलोकीको भस्म न कर।'

इस प्रकार दैत्योंका नाश ही जानेपर समस्त देवता, ऋषि और लोक प्रकृतिस्य हो गये तथा बड़े श्रेष्ठ वचनोंसे भगवान् शंकरकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान्की आज्ञा पाकर ब्रह्मादि सभी देवगण सफलमनोरथ होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये। इस तरह श्रीमहादेवजीने समस्त लोकोंका कल्याण किया था। उस समय जिस प्रकार जगत्कर्ता भगवान् ब्रह्माजीने उनका सारथ्य किया था उसी प्रकार आप भी धीरवर कर्णके अश्वोंका संचालन कीजिये। राजन्! इसमें संबेह नहीं कि आप श्रीकृष्ण, कर्ण और अर्जुनसे भी श्रेष्ठ हैं। कर्ण युद्ध करनेमें श्रीमहादेवजीके समान हैं तो आप रथ हाँकनेमें साक्षात् ब्रह्माजीके सद्गुरु हैं। अतः आप दोनों मिलकर मेरे शत्रुओंको उन दैत्योंके समान ही परास्त कर सकते हैं। महाराज! अब आप ऐसा उपाय कीजिये जिससे आज कर्ण संधामर्ममिमें अर्जुनका वध कर सके। कर्णकी, हमारी और हमारे राज्यकी स्थिति अब आपहीके ऊपर निर्भर है। हमारी विजय भी आपपर ही अवलम्बित है। अतः आप कर्णके पोड़ोका नियन्त्रण कीजिये।

महाराज! कर्णको स्वयं शीघ्रगुरामजीने धनुर्विद्या सिखायी है। यदि इसमें कोई दोष होता तो वे इसे कभी दिव्य अस्त्र न देते। मैं तो कर्णको शक्तियुक्तमें उत्पन्न हुआ कोई वैश्वपुत्र ही समझता हूँ। यह कवच और कुण्डल पट्टने उत्पन्न हुआ है तथा विशालबाहु और महारथी है; इसलिये इसका जन्म सूतकुसमें होना किसी प्रकार सम्भव नहीं है।

शल्यको सारथि बनाकर कर्णका युद्धके लिये प्रयाण

राजा दुर्योधनने कहा—वीरवर ! सारथि तो रथीसे भी बड़ेकर होना चाहिये । इसलिये आप संग्रामभूमिमें कर्णके घोड़ोंका नियन्त्रण कीजिये । जिस प्रकार त्रिपुरोंके नाशके लिये देवताओंने कोशिश करके ब्रह्माजीको भगवान् शंकरका सारथि बनाया था उसी प्रकार हम कर्णसे भी श्रेष्ठ आपको उसका सारथि बनाना चाहते हैं ।

शल्यने कहा—राजन् ! जिस प्रकार ब्रह्माजीने महादेवजीका सारथ्य किया था और जिस प्रकार एक ही वाणसे सम्पूर्ण दैत्योंका संहार हुआ था वह सब मुझे मालूम है । यह प्रसङ्ग श्रीकृष्णको भी विदित ही है । वे भूत, भविष्यत्की सब बातोंको पूरी तरहसे जानते हैं । यह सब जानकर ही उन्होंने अर्जुनका सारथ्य ग्रहण किया है । यदि किसी प्रकार कर्णने अर्जुनको मार डाला तो उसे मरा देखकर श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध करने लगेंगे और जब वे कोप करेंगे तो तुम्हारी सेनाका कोई भी राजा शत्रुओंकी सेनाका सामना नहीं कर सकेगा ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब मद्राज शल्यने ऐसा कहा तो दुर्योधन कहने लगा, 'महाराज ! आप कर्णका अपमान न करें । वह समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण अस्त्रविद्यामें पारंगत है । यह बात प्रत्यक्ष ही है कि उस रात्रिमें घटोत्कचने सैंकड़ों मायाएँ रची थीं, तब उसे कर्णने ही मारा था । इन दिनोंमें अर्जुन भी डरके मारे कभी डटकर कर्णके सामने खड़ा नहीं हुआ है । महाबली भीमको भी कर्णने धनुषकी नोकसे युद्धके लिये उत्तेजित किया था और उसे 'ओ मूढ़ ! ओ पेटपाल !' ऐसा कहकर सम्बोधन किया था । उसने माद्रीपुत्र शूरवीर नकुलको भी संग्राममें परास्त कर दिया था और किसी विशेष कारणसे ही उसे नहीं मारा था । कर्णने ही वृष्णिकुलतिलक सात्यकिको युद्धमें परास्त किया था और उसे बलात्कारसे रथहीन कर दिया था । उसने घृष्टद्युम्नादि सृञ्जय वीरोंको तो संग्रामभूमिमें हँसते-हँसते कई बार नीचा दिखाया था । मला, ऐसे महारथी कर्णको पाण्डवलोग कैसे परास्त कर सकते हैं । कर्ण तो कुपित होनेपर बज्रधर इन्द्रको भी मार सकता है । आप भी सम्पूर्ण अस्त्रोंके ज्ञाता और समस्त विद्याओंमें पारंगत हैं । पृथ्वीमें आपके समान किसीका भी बाहुबल नहीं है । आप शत्रुओंके लिये शल्यके समान हैं, इसीसे आप 'शल्य' नामसे प्रतिद्ध हैं । सारे यदुवंशी मिलकर भी आपके बाहुपाशमें पड़नेपर उससे छुटकारा नहीं

पा सकते । राजन् ! कृष्ण क्या आपके बाहुबलसे भी बलमें बड़े-बड़े हैं ? जिस प्रकार अर्जुनके मारे जानेपर श्रीकृष्ण पाण्डवसेनाकी रक्षा करेंगे उसी प्रकार यदि कर्ण मारा गया तो आपको हमारी विशाल वाहिनीकी रक्षा करनी होगी । महाराज ! मैं तो आपके बलसे ही अपने भाइयों और समस्त राजाओंके ऋणसे मुक्त होना चाहता हूँ ।'

कर्णने कहा—मद्राज ! जिस प्रकार ब्रह्माजी भगवान् शंकरके और श्रीकृष्ण अर्जुनके सारथि बनकर उनका हित करते रहे हैं, उसी प्रकार आप सर्वदा हमारे हितमें तत्पर रहें ।

शल्य बोले—अपनी या दूसरेकी निन्दा अथवा स्तुति करना श्रेष्ठ पुरुषोंका काम नहीं है । तो भी तुम्हारे विश्वासके लिये मैं अपने विषयमें जो प्रशंसाकी बातें कहता हूँ वह सुनो । मैं सावधानीसे घोड़ोंको हाँकने, उनके गुण-दोषोंको जानने तथा उनकी चिकित्सा करनेमें इन्द्रके सारथि मातलिके समान हूँ । अतः तुम चिन्ता न करो । अर्जुनके साथ युद्ध करते समय मैं तुम्हारा रथ हाँकूंगा ।

दुर्योधनने कहा—कर्ण ! महाराज शल्य श्रीकृष्णसे भी बड़े सारथि हैं । अब ये तुम्हारा सारथ्य करेंगे । मातलि जैसे इन्द्रके रथको हाँकता है, उसी प्रकार ये तुम्हारे रथके घोड़ोंको हाँकेंगे । अब तुम निःसंदेह पाण्डवोंको नीचा दिखा सकोगे ।

राजन् ! तब कर्णने प्रसन्न होकर अपने सारथिसे कहा—'सूत ! तुम फौरन मेरा रथ तैयार करके लाओ ।' सारथिने कर्णके विजयी रथको विधिवत् सजाकर 'महाराजकी जय हो !' ऐसा कहकर निवेदन किया । कर्णने शास्त्रविधिसे उस श्रेष्ठ रथका पूजन किया और उसको परिक्रमा करके सूर्यदेवकी स्तुति की । फिर उसने पास ही खड़े हुए मद्राजसे कहा, 'राजन् ! रथपर बैठिये ।' महामतेजस्वी शल्य रथके अग्रभाग पर बैठे । इसके बाद कर्ण भी उसपर सवार हुआ । उस समय वहाँ दोनों तेजस्वी वीरोंका स्तुतिगान हो रहा था । महाराज शल्यने घोड़ोंकी रास्से सँभाली और कर्ण रथपर बैठकर धनुषकी टंकार करने लगा ।

तब दुर्योधनने कर्णसे कहा—'वीरवर ! मैं समझता था कि महारथी भीष्म और द्रोण अर्जुन और भीमसेनको मार डालेंगे । किंतु वे इस कर्मको नहीं कर सके । अब तुम या तो धर्मराजको कंद कर लो, या अर्जुन, भीमसेन और नकुल-सहदेवको मार डालो । अच्छा, तम घटके लिये



प्रस्थान करो। तुम्हारी जय ही, कल्याण ही। तुम पाण्डु-पुत्रोंकी सारी सेनाको भस्म कर दो।'

कर्णने दुर्योधनकी बात स्वीकार करके राजा शल्यसे कहा—'महाबाहो! घोड़ोंको बढ़ाइये, जिसमे कि मैं अर्जुन, भीम, नकुल-सहदेव और युधिष्ठिरको मार सकूँ। आज पाण्डुओंके नाश और दुर्योधनको विजयके लिये मैं हजारों तीखे बाण छोड़ूँगा।'

शल्य बोले—सूतपुत्र! तुम पाण्डुवांका अपमान क्यों करते हो? ये तो समस्त शास्त्रोंके पारगामो, महान् धनुर्धर, रणमें पीठ न दिखानेवाले, अजेय और अत्यन्त पराक्रमी हैं। ये साक्षात् इन्द्रको भी भयभीत कर सकते हैं। जिस समय तुम गाण्डीव धनुषकी बज्रके समान भीषण दंशर सुनोगे उस समय इस प्रकार गाल बजाना भूल जाओगे। जिस समय भीमसेन दांत उखाड़-उखाड़कर हाथियोंकी सेनाका संहार करेगा उस समय तुम इस प्रकार बातें न बना सकोगे। जिस समय तुम धर्मराज युधिष्ठिर और नकुल-सहदेवको अपने पंने बाणोंसे शत्रुओंका संहार करते देखोगे उस समय ऐसी कोई बात नहीं कह सकोगे।

सञ्जयने कहा—राजन्! तब मद्राजकी इन सब बातोंकी उपेक्षा करके कर्णने उनसे कहा, 'अच्छा, अब रथ बढ़ाइये।'

शल्यके सारथ्यमें कर्णका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान और दोनोंका कटु-सम्भाषण

सञ्जयने कहा—महाराज! जब महान् धनुर्धर कर्ण युद्धके लिये तैयार हो गया तो उसे देखकर समस्त कौरवबोहर हर्षध्वनि करने लगे। कर्णके प्रस्थान करते ही आपके पक्षके सब वीरोंने भी मृत्युका भय छोड़कर दुन्दुभि और भैरवोंके शब्दके साथ युद्ध भूमिके लिये कूच किया। उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी तथा कर्णके घोड़े पृथ्वीपर गिर गये। कौरवोंके विनाशकी सूचना देनेवाले वहाँ ऐसे ही और भी अनेकों उत्पत्त हुए। किन्तु दंबवचन सबकी युद्धिपर ऐसा मोहजाल छा गया कि उन्होंने उनकी कुछ भी परवा नहीं की। कर्णके कूच करनेपर सब राजाओंने जयघोष किया। तब कर्णने राजा शल्यको सम्बोधन करके कहा, 'इस समय मैं अस्त्र-शस्त्र धारण किये रथमें बैठा हूँ, अब मुझे श्रेष्ठमे भरे हुए वज्रधर ध्वजसे भी भय नहीं है। इन भीष्मादि घोड़ाओंको युद्धमें सोते देखकर मेरा साहस बहुत बढ़ गया है। वास्तवमें अर्जुनका मुक्ताबला रणभूमिमें भेरे सिखा और कोई नहीं कर सकता। यह साक्षात् उपरूप मृत्युके ही समान है।

आचार्य द्रोणमें शस्त्रसंवालयकी कुशलता, बल, धैर्य और विनय आदि सभी गुण थे, उनके पास बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र भी थे, जब ये ही कालके गालमें चले गये तो और सबको भी मैं कमजोर ही समझता हूँ। अस्त्र, बल, पराक्रम, क्रिया, नीति और बढ़िया-बढ़िया हथियार भी मनुष्यको मुक्त पहुँचानेमें समर्थ नहीं हैं। देखो, गुरु द्रोणाचार्य इन सब बातोंके रहते हुए भी शत्रुओंके हाथसे मारे गये। ये अग्नि और सूर्यके समान तेजस्यो, विष्णु और इन्द्रके समान पराक्रमी, बृहस्पति और शुकके समान नीतिकुशल और बड़े ही दुःसह थे; तो भी शस्त्र उनकी रक्षा नहीं कर सके। इस समय दुर्योधनका पुत्रपाप हीला पड़ गया है; ऐसी स्थितिमें मैं अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह समझता हूँ। अब आप शत्रुओंकी सेनाको और रथ बढ़ाइये। जहाँ सत्यप्रतिता राजा युधिष्ठिर मौजूद हैं, जहाँ भीमसेन, अर्जुन, धीमत्स्य, सात्यकि, सञ्जय धीर और नकुल-सहदेव युद्धके मंदानमें बटे हुए हैं, वहाँ भेरे सिखा और कौन घोड़ा इन सब वीरोंसे

टयकर ले सकता है ? इसलिये मद्रराज ! आप शीघ्र ही रणभूमिमें पाञ्चाल, पाण्डव और सृञ्जय वीरोंकी ओर रय ले चलिये । मैं उनके साथ चार हाथ करके या तो उन्हींको मार डालूंगा या आचार्य द्रोणके मांगते स्वयं ही यमराजके पास चला जाऊंगा । धृतराष्ट्रनन्दन दुर्योधन सर्वदा ही मेरे कल्याणके लिये प्रयत्न करते रहे हैं । उनके लिये मैं अपने प्रिय भोग और दुस्त्यज प्राणोंको भी निछावर कर सकता हूँ । मुझे यह श्रेष्ठ रथ भगवान् परशुरामजीने दिया था; इसकी धुरी जरा भी शब्द नहीं करती । इसमें तरह-तरहके धनुष, ध्वजा, गवा, बाण, खड्ग और अनेकों बढ़िया-बढ़िया हथियार रखे हुए हैं । जिस समय यह चलता है, इससे वज्रपातके समान भोषण घरघराहट होने लगती है । इसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं तथा अच्छे-अच्छे तरकस सुशोभित हैं । इस श्रेष्ठ रथमें बैठकर मैं अवश्य ही अर्जुनको मार डालूंगा । यदि स्वयं काल भी अर्जुनको बचाना चाहेगा तो मैं उसे भी नष्ट कर डालूंगा अथवा भोष्मके समान स्वयं ही यमलोक चला जाऊंगा । अधिक क्या कहूँ, यदि उसकी रक्षाके लिये यम, वरुण, कुबेर और इन्द्र भी अपने अनुयायियोंसहित एक साथ मिलकर युद्धभूमिमें आयेंगे तो मैं उसे उन सबके सहित परास्त कर दूंगा ।'

जब युद्धके जोशमें भरे हुए कर्णने ऐसी बातें कहीं तो उन्हें सुनकर मद्रराज हँसे और उसका तिरस्कार करके



बीचहीमें रोककर कहने लगे, 'कर्ण ! बस, अब चुप रहो । तुम जोशमें आकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह गये हो । भला, कहाँ नरश्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ नराधम तुम । यह तो बताओ, अर्जुनके सिवा और ऐसा कौन है जो साक्षात् विष्णुभगवान्से सुरक्षित यादवोंके राजभवनको बलात्कारसे नीचा दिखाकर स्वयं पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी छोटी बहिनका हरण कर सके तथा तीनों लोकोंके अधीश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् शंकरकी युद्धके लिये ललकार सके । जब विराट-नगरमें गोहरणके समय पुरुषश्रेष्ठ अर्जुनने तुम्हें सारी सेना और द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा एवं भीष्मके सहित परास्त किया था उस समय तुमने उसे क्यों नहीं जीत लिया ? अब आज तुम्हारे वधके लिये ही यह दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है । यदि तुम शत्रुके भयसे भाग न गये तो अवश्य ही मारे जाओगे ।'


मद्रराजके इस प्रकार कटुभाषण करनेपर कौरव-सेनापति कर्ण अत्यन्त क्रोधमें भर गया और उनसे कहने लगा, 'रहने दो, रहने दो, इस प्रकार क्यों बड़बड़ाते हो, अब तो मेरा और अर्जुनका युद्ध होनेहीवाला है । यदि वह संग्राममें मुझे परास्त कर दे तो तुम्हारी ही बात सच मानो जायगी ।' इसपर मद्रराजने 'ऐसा ही हो' इतना कहकर और कोई उत्तर नहीं दिया । तब कर्णने युद्धके लिये उत्सुक होकर उनसे कहा 'शल्य ! रथ बढ़ाओ ।'

युद्धके लिये कूच करके कर्णने अपनी सेनाको उत्साहित करनेके लिये पाण्डवोंके एक-एक चीरसे मिलनेपर कहा, 'आज तुममेंसे जो कोई मुझे श्वेतवाहन अर्जुनसे मिलावेगा उसे मैं घबेच्छ धन दूंगा । यदि उतनेसे भी उसकी तृप्ति न हुई तो उसे रत्नोंसे भरा हुआ एक छकड़ा और दूंगा । यदि इससे भी संतोष न हुआ तो उसे हाथीके समान बलवान् छः बंलोंसे जुता हुआ एक सोनेका रथ दूंगा । यदि इतनेसे भी प्रसन्न न हुआ तो उसे सौ हाथी, सौ गाँव, सौ सुवर्णमय रथ, सौ सुशिक्षित और हृष्ट-पुष्ट घोड़े तथा सुवर्णसे भड़े हुए सौगोवाली चार सौ दुधार गौएँ दूंगा । यदि इन सबको पाकर भी वह प्रसन्न न हुआ तो जो चीज वह स्वयं लेना चाहेगा वही उसे दूंगा । मेरे पास पुत्र, स्त्री तथा दूसरे जो भी भोगोंके साधन हैं वह सब तथा और भी जिस वस्तुकी वह इच्छा करेगा वही उसे दूंगा । जो पुरुष मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुनका पता बतावेगा, उन दोनोंको मारकर उनका सारा धन मैं उसीको दे डालूंगा ।' युद्धक्षेत्रमें खड़े हुए कर्णने ऐसी ही अनेकों बातें कहीं तथा अपना श्रेष्ठ शस्त्र बजाया । इन्हें सुनकर दुर्योधन तथा उसके अनुयायी वड़े प्रसन्न हुए । सब ओर दुन्दुभि और मूढजनोंका शब्द होने लगा तथा योद्धालोग सिंहके समान गरजने लगे ।

तब मद्रराज शल्यने हँसकर कहा, 'सूतयुव ! तुम्हें हाथीके समान बलवान् छः बँलेते जुता हुआ सोनेका रथ देनेकी आवश्यकता नहीं है; अर्जुन तुम्हें स्वयं ही दीव्य जायगा। तुम मूर्खतासे ही कुबेरकी तरह धन सुदाना चाहते हो, आज अर्जुनको तो तुम बिना चल किये ही देख लोगे। तुम जो बुद्धिहीन पुरुषोंके समान अपना सारा धन देनेको तैयार हुए हो, इससे मालूम होता है कि अपात्रको धन देनेमें जो दीव्य है उसका तुम्हें पता नहीं है। तुम जो अपात्र धन देना चाहते हो उससे तो यत्नादि करो। तुम मोहवश वृषा ही कृष्ण और अर्जुनको मारनेकी इच्छा करते हो। हमने यह बात तो कभी नहीं सुनी कि किसी गोदड़ने युद्धमें सिंहको मार दिया हो। तुम्हें करनेयोग्य और न करनेयोग्य कामके विषयमें कुछ भी विवेक नहीं है। निःसंदेह तुम्हारा काल आ पहुँचा है। कोई भी जीवित रहनेवाला पुरुष भला ऐसी ऋष्यपांडव बातें कंसे कह सकता है ? तुम जो काम करना चाहते हो वह ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजाओंके बलसे समुद्र पार करना चाहे अथवा पहाड़की चोटियोंके कूबना चाहे। जब सभ्यताची अर्जुन अपना दिव्य धनुष लेकर सेनाको पीडित करता हुआ तुम्हें पने बाणोंसे पीडित करेगा उस समय तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कोई माताकी गोदमें सोया हुआ बालक चन्द्रमाको पकड़ना चाहे, उसी प्रकार तुम अज्ञानसे ही रथमें चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुनको परास्त करनेकी बात सोचते हो। जिस प्रकार कोई घरके भीतर बंठा हुआ कुत्ता धनमें रहनेवाले सिंहकी ओर भूँके, उसी प्रकार तुम पुरुषसिंह अर्जुनके लिये बड़बड़ा रहे हो। कर्ण ! धनमें खरगोशोंके साथ रहनेवाला गोदड़ भी जबतक सिंहको नहीं देखता तबतक अपनेको सिंह ही समझता रहता है। इसी प्रकार जबतक तुम रथपर चढ़े हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनको नहीं देखते हो तभीतक अपनेको सिंह समझ रहे हो। जिस समय तुम्हारी दृष्टि अर्जुनपर पड़ेगी, तुम तत्काल ही गोदड़ बन जाओगे। जिस तरह अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार लोकमें चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाघ, गोदड़ और सिंह, खरगोश और हाथी मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार सब लोग तुम्हें और अर्जुनको भी समझते हैं।'

शल्यके इस प्रकार तिरस्कार करनेपर उनके शल्यसदृश बाबूसाँप विचार करके कर्णने अत्यन्त क्रुपित होकर कहा, 'शल्य ! गुणवानोंके गुणोंकी तो गुणोजन ही परख सकते हैं, गुणहीनोंको उनका पता नहीं लग सकता। तुममें कोई गुण तो है नहीं; इसलिये तुम्हें गुणागुणका ज्ञान क्या हो सकता है ? अजो ! अर्जुनके बड़े-बड़े अस्त्र, क्रोध, पराक्रम, धनुष,

बाण और धीरताको जँसा मैं जानना हूँ, बँसा तुम नहीं समझ सकते। मेरा यह भयंकर बाण मनुष्य, घोड़े और हाथियोंका संग्रह करनेवाला, अत्यन्त भीषण और क्रयक एवं अस्थियोंको भी फोड़ डालनेवाला है। मैं रोपमें भरनेपर इससे पंचतराज मेरुकी भी तोड़ सकता हूँ। किंतु अर्जुन और श्रीकृष्णको छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुषपर इसका प्रयोग कभी नहीं करूँगा; क्योंकि सम्पूर्ण यूप्ययंत्रियोंकी लक्ष्मी श्रीकृष्णके आश्रित है और समस्त पाण्डवोंकी विजयका आधार अर्जुन है। मेरे सिया और ऐसा कौन है जो इन दोनोंसे मुकाबला होनेपर इन्हें संग्रामसे पीछे हटा सके। अर्जुनके पास गाण्डीव धनुष है और श्रीकृष्णके पास सुदर्शन चक्र। किंतु ये भीष्मपुरुषोंकी ही डरानेवाली चीजें हैं, मुझे तो इनसे हर्ष ही होता है। तुम तो दुष्टस्वभावा, मूर्ख और बड़ी-बड़ी लड़ाइयोंसे अनभिज्ञ हो। इस समय भयसे पीडित हो और डरके कारण ही बहुत-सी अनर्गल बातें बना रहे हो। अरे पापी देशमें उत्पन्न हुए क्षत्रियकुलकत्तक दुर्गुण्डित शल्य ! मैं इन दोनोंको मारकर आज भाई-बन्धुओंके सहित तुम्हारा भी



काम तमाम कर दूँगा। तुम हमारे शत्रु होकर भी मुहूर्तसे बनकर मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुनसे डरा रहे हो, सो मैंने यह बात पहले ही सुन रखी है कि मद्रदेशका आदमी बुद्धिबिना, असत्यभाषी और क्रुदित होता है तथा उस देशके लोग मरते दम तक बुद्ध्यन्त नहीं छोड़ते। ये असभ्यलोग मदिरापान

करके हंसते और चिल्लाते रहते हैं, ऊटपटांग गीत गाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं और आपसमें अश्लील बातें किया करते हैं। उनमें भला धर्म कैसे रह सकता है? ये लोग अपने घमंड और नीच कर्मोंके लिये प्रसिद्ध हैं। इसलिये इनके साथ बंद या मित्रता कभी नहीं करनी चाहिये। इनमें स्नेह नामकी तो कोई चीज है ही नहीं। जब किसी मनुष्यको बिच्छू काटता है तो गुणी लोग उसका विष उतारनेके लिये यह मन्त्र पढ़ा करते हैं—'अरे बिच्छू! जिस प्रकार मद्रदेशके लोगोंसे मित्रता नहीं हो सकती उसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट हो गया है, क्योंकि मैंने अयंवेदके मन्त्रसे उसकी शान्ति कर दी है।' सो यह बात ठीक ही जान पड़ती है। मद्रदेशकी स्त्रियाँ भी बड़ी स्वेच्छाचारिणी होती हैं। अतः उन्हींके गर्भसे जन्म लेकर तुम धर्मकी बात कैसे कह सकते हो?

'मैं मतिमान् महाराज दुर्योधनका प्रिय मित्र हूँ। मेरे प्राण और सारी सम्पत्ति उन्हींके लिये हैं। किंतु मालूम होता है कि तुम्हें पाण्डवोंने अपनी ओर तोड़ लिया है। इसीसे तुम हमारे साथ सब प्रकार शत्रुका-सा वर्ताव कर रहे हो।

पर याद रखो, जिस प्रकार नास्तिकलोग किसी धर्मज्ञ पुरुषको धर्मपथसे विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम-जैसे संकड़ों पुरुष भी मुझे संग्रामसे विमुख नहीं कर सकते। गुरुवर परशुरामजीने संग्राममें पीठ न दिखाकर देहत्याग करनेवाले पुरुषसिंहोंकी जो सद्गति होती है, वह मुझे बतलायी थी। उसका मुझे आज भी स्मरण है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तीनों लोकोंमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस कामसे हटा सके। इसलिये तुम चुप रहो। मैं तुम्हें मारकर मांसाहारी जीवोंके हवाले कर देता; परंतु एक तो मुझे अपने मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्रके कामका खयाल है दूसरे तुम्हें मारनेसे निन्दा होगी, तीसरे मैंने क्षमा करनेका वचन दिया है—इन तीन कारणोंसे ही तुम अभी तक जीवित हो। किंतु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे तो मैं अपनी वज्रतुल्य गदासे तुम्हारा सिर पृथ्वीपर गिरा दूंगा।'

इसके बाद कर्णने फिर वेधड़क होकर कहा, 'चलो, रथ बढ़ाओ।'

राजा शल्यका कर्णको एक हंस और कौएका उपाख्यान सुनाना

सञ्जयने कहा—राजन्! कर्णके ये वचन सुनकर राजा शल्यने उसे एक दृष्टान्त सुनाते हुए कहा—कुलकलंक कर्ण। मैं तुम्हें एक दृष्टान्त सुनाता हूँ। कहते हैं, समुद्रके तटपर किसी धर्मप्रधान राजाके राज्यमें एक धनधान्यसम्पन्न वंश रहता था। वह यज्ञ-यागादि करनेवाला, दानी, क्षमाशील, अपने कर्मोंमें स्थित, पवित्रात्मा और समस्त जीवोंपर दया करनेवाला था। उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे। वे एक कौएको अपना जूठा भात, दही, दूध और खीर आदि दे दिया करते थे। उस उच्छिष्टको खा-खाकर वह खूब हूट-पुट हो गया और घमंडमें भरकर अपने सजातीय और अपनेसे श्रेष्ठ पक्षियोंका अपमान करने लगा। एक बार उस समुद्रतटपर गरुडके समान लंबी-लंबी उड़ानें भरनेवाले मानसरोवरवासी हंस आये। तब उस घमंडी कौएने जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता था उस हंससे कहा, 'आओ, आज हमारी-तुम्हारी उड़ान हो जाय।' यह सुनकर वहाँ आये हुए सभी हंस हंस पड़े और उस बातनी कौएसे कहने लगे, 'हम मानसरोवरमें रहनेवाले हंस हैं और इस सारी पृथ्वीपर उड़ते फिरा करते हैं। हमारी लंबी उड़ानके कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं। भैया! तुम तो एक कौआ ही हो न? फिर किसी बलिष्ठ हंसको उड़ानके लिये क्यों



पुनीती बैसे हो ? यताभी तो सही, मुम हमारे साथ कैसे उड़ सकते ?'

हंताकी यह बात सुनकर कौएने उसे धार-धार बुलकारा और स्वयं शूद्र जातिका होनेके कारण अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगा, मैं एक तो एक प्रकारकी उड़ानें उड़ सकता हूँ । जगमेंसे प्रत्येक उड़ान सी-सी योजनाकी होती है और वे सभी बड़ी अद्भुत और भाँति-भाँतिफी होती हैं । जगमेंसे कुछ उड़ानोंके नाम इस प्रकार हैं—उड़ौन (ऊँचा उड़ना), अपडौन (नीचा उड़ना), प्रडौन (घारों और उड़ना), डौन (साधारण उड़ना), निडौन (धीरे-धीरे उड़ना), साँडौन (सतित गतिसे उड़ना), सियंगुडौन (तिरछा उड़ना), विडौन (दूरातोंकी घातकी गफत करते हुए उड़ना), पटिडौन (साथ और उड़ना), पराडौन (पीछेकी ओर उड़ना), मुडौन (स्वयंकी ओर उड़ना), अभिडौन (सागनेकी ओर उड़ना), महाडौन (बहुत वेगसे उड़ना), निर्डौन (परातोंकी हिलावे बिना ही उड़ना), अतिडौन (प्रपञ्चतासे उड़ना), साँडौन डौन-डौन (सुन्दरगतिसे आरम्भ करके फिर धक्कर काटकर नीचेकी ओर उड़ना), साँडीमोडौनडीन (सुन्दर गतिसे आरम्भ करके फिर धक्कर काटकर ऊँचा उड़ना), डौनीवाडौन (एक प्रकारकी उड़ानमें शूरी उड़ान बिलाना), सन्पात (क्षणमर सुन्दरतासे उड़कर फिर पल फाँकड़ाना), समुवीच (कभी ऊपरकी ओर और कभी नीचेकी ओर उड़ना), व्यतिरिक्तक (कितो राक्षका संकल्प करके उड़ना), गतागत (कितो लक्ष्यतक उड़कर फिर लौट आना) और प्रतिगत (पलटा खाना) इत्यादि । मैं तुम्हारे सामने वे सब गतियाँ बिलानेगा; सब मुन्हें मेरी शक्तिका पता लगेगा । इनमेंसे कितो भी गतिसे मैं आकाशमें उड़ सकता हूँ । मुम जैसा उचित समझे कहो और यताभी कि मैं कित गतिसे उड़ूँ ?'

कौएके दृग प्रकार कहनेपर एक हंससे हँसकर कहा, 'काक ! मुम अवश्य एक ही एक प्रकारकी उड़ानें जानते होंगे; और सब पक्षी तो एक प्रकारकी उड़ान ही जानते हैं । मैं भी एक प्रकारकी गतिसे ही उड़ूँगा । अन्य कितो गतिका मुझे ज्ञान नहीं है । मुन्हें जो उड़ान पसंद हो उतीते उड़ो ।'

यह सुनकर वहाँ जो दूसरे कौए थे वे हँस पड़े और कहने लगे, 'भला यह हंस एक ही उड़ानसे तो प्रकारकी उड़ानोंको कैसे भीत सकेगा ?' अब यह कौआ और हंस होइ बचकर उड़े । कौआ तो प्रकारकी उड़ानोंकी बसोंकीकी धकित करने लगा तथा हंस अपनी एक ही प्रकारकी सुन्दर गतिसे उड़ रहा था । कौएकी अपेक्षा उसकी गति बहुत

गन्ध थी । यह बेगकर कौए हंसोंका तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, 'यह हंस उड़ा तो सही, किन्तु कौएके सामने इसकी गति तो इतनी गन्ध है !' यह सुनकर हंसने उत्तरात्तर वेग बढ़ाते हुए परिणामकी ओर समुद्रके ऊपर उड़ान लगायी । इस घातमें कौआ उड़ते-उड़ते थक गया । उसे विधाम लेनेके तिथे कहीं कोई टापू या पक्ष बिनायी नहीं देता था । इससे उसे बड़ा भय हुआ और वह सोचने लगा कि 'मैं धक्कर कहीं इस समुद्रमें ही तो ग गिर पड़ूँगा ?'

अन्तमें यह अत्यन्त भ्रान्त होकर हंसके पास आया । उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंसने सत्युपयोग प्रकटा स्मरण करते हुए उसे बधा लेनेके विचारसे कहा, 'क्यों जी ! मुमने अपनी अनेक प्रकारकी उड़ानोंका बलाग किया, परंतु उनका वर्णन करते समय अपनी इस गूळ गतिका उल्लेख नहीं किया । भला, इस समय मुम कित उड़ानसे उड़ रहे हो, जो धार-धार तुम्हारी चोंच और डोंगे जातसे लग जाते हैं ।'

कण ! सब उस कौएने हंससे कहा, 'भाई हंस ! हम तो कौए हैं, व्यर्थ कौच-कौच किया करते हैं । मैं अपने प्राण मुन्हें सोपता हूँ, मुम मुझे कितो प्रकार इस जगनेः तीरतक ले चलो ।' ऐसा कहकर वह अपनी चोंच और डोंगीते जराको



एवमें करते हुए समुद्रमें गिर गया । यह बेगकर उल्लेख, 'काक ! मुम तो बड़ी भोली बघावते हैं, मुन्हें ये कि मैं

एक तो एक प्रकारकी जड़ानें जागता हूँ । फिर इस सत्य इस प्रकार थककर क्यों मिर रहे हो ?' इसपर कौण्ठे मुझमें भीक्षित होकर कहा, 'हूँ । मैं जूटन खा-खाकर पैसा घमंडी हो गया था कि अपनीकी साक्षात् गरुड़के तपान सत्यकी सत्य था । इसीसे मैंने अनिर्णय कौश्री और ब्रूते पक्षियोंका भी बहुत अपमान किया था । किंतु अब मैं तुम्हारी शरण हूँ, तुम मुझे किसी टापूके तटपर पहुँचा दो । शंका ! यदि मैं जीता-जागता फिर अपने देशमें पहुँच गया तो किसीका निरादर नहीं करूँगा । अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपाधिसे उधार लो ।'

इस प्रकार धीन प्रचन कहकर यह अचेत-सा होकर विलाप करने लगा । उसे काँध-काँध करते और ससुद्धमें डूबते देखकर हंसको गया आ गयी और उसने उसे पंजोरि पकड़कर धीरेसे अपनी पीठपर चढ़ा लिया । फिर यह उसी स्थानपर आ गया, जहाँसे कि भारी चगाकर वे पहले उड़े थे । यहाँ पहुँचकर उसने कौण्ठेकी गीधे जतराकर बहुत शक्ति धर्याया और फिर इन्द्रजन्तुमार किसी दूर देशको चला गया ।

कर्ण ! इस प्रकार जूटनमें पुष्ट हुआ यह कौआ अपने बल और शीर्षका घमंड भूलकर शान्त हुआ । जैसे पूर्वकालमें यह कौआ धर्मशोक जूटन खाता था, उसी प्रकार मुझें भी भूतराष्ट्रके मुर्गेने अपनी जूटन खिला-खिलाकर पासा है, इसीसे तुम अपने समयका और अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुटवोंका भी अपमान करते हो । विराट-नगरमें तो प्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा और सब कौरव भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे; उस समय तुमने अकेले अर्जुनका

समय तमाम क्यों नहीं कर डाला ? उस समय तुम्हारा पराक्रम कहीं चला गया था ? जब संप्रामभूमिमें अर्जुनने तुम्हारे शार्दूलका घण किया था, उस समय समस्त कौरव योद्धाओंके सामने सत्ये पहले तो तुम्हीं भागे थे । इसी प्रकार हितचनमें गन्धर्वोंके आक्रमण करनेपर भी सारे कौरवोंको छोड़कर पहले तुम्हीं पीठ दिखायी थी । उस समय भी अर्जुनने ही चित्रसेनादि गन्धर्वोंको युद्धमें परास्त करके दुर्योधन और उसकी सैनियोंको छुड़ाया था । परशुरामजीने राजाओंकी सभामें श्रीकृष्ण और अर्जुनका जो पुरातन प्रभाव कहा था वह तो तुमने सुना ही था । इसके सिवा भीष्म और द्रोण भी राजाओंके आगे इन दोनोंकी अत्यधिकाता वर्णन करते रहते थे । उनकी बातें भी तुम ब्रार-भार सुनते ही रहे हो । मैं तुम्हें मेरी कौन-कौन-सी बातें बताऊँ जिन्हें देखते हुए अर्जुन तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढ़-बढ़कर है । अब तुम शीघ्र ही यमुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और कुन्तीकुमार अर्जुनको अपने श्रेष्ठ रथपर घंटे हुए देखोगे । अतः जिस प्रकार कौण्ठे बुद्धिगामीने हंसकी शरण ले ली थी उसी प्रकार तुम भी श्रीकृष्ण और अर्जुनका आश्रय ले लो । जिस समय तुम एक ही रथपर चढ़े हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनको युद्धमें पराक्रम दिखते देखोगे, उस समय ऐसी बातें नहीं कह सकोगे, जैसे जुगनु सूर्य और चन्द्रमाका तिरस्कार करे उसी प्रकार तुम मूर्खतासे उनका अपमान मत करो । महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन युद्धमें श्रेष्ठ हैं, तुम उनका तिरस्कार न करो और इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें बनाना छोड़ दो ।

कर्ण और शल्यका कटुसम्भाषण और दुर्योधनका उन्हें समझाना

शरजयने कहा—महाराज ! शल्यकी ये अभिय बातें सुनकर कर्णने कहा—शल्य ! अर्जुनका रथ हाँकीनेयाले कृष्णके बल और अर्जुनके विष्णुसर्वोक्त अंसा मुझे पता है अंसा तुम उन्हें कहीं जान सकते । तो भी उन दोनोंके साथ मैं धैर्यक होकर संप्राम करूँगा । किंतु विप्रवर परशुरामजीने मुझे जो शाप दिया है, आज यह मुझे बहुत संताप कर रहा है । पूर्वकालमें मैं विषय अरुणोंकी प्रायिके लिये ब्राह्मणधेय धारण करके परशुरामजीके यहाँ रहा था । उस समय अर्जुनका हित करनेके लिये यहाँ भी इन्द्रने ही मेरे काममें विघ्न डाला था । एक बार मुझी मेरी जाँघपर तिर रखते तो रहे थे, उस समय उसने एक बेजोत कीड़ेके रूपमें आकर मेरी जाँघमें काटा । उसके जोरसे काटनेके कारण मेरे

शरीरसे लूनकी धारा बहने लगी । किंतु मुझीकी निद्रा न टूट जाय इस समयमें मैं लनिक भी न हिला-डुला । जगनेपर उन्होंने यह सब पटना देखी । मुझे ऐसा धैर्यवान् देखकर उन्होंने कहा, 'अरे ! तू ब्राह्मण तो है नहीं, टीका-ठीक बला, किस जातिका है ?' तब मैंने उन्हें टीका-ठीक बता दिया कि 'मैं सूत हूँ ।' मेरी बात सुनकर महातापस्वी परशुरामजी क्रोधमें भर गये और मुझे शाप दिया कि 'सूत ! तूने ब्राह्मणका धेय बनाकर यह ब्रह्मारत प्राप्त किया है, इसलिये काम पड़नेपर मुझे इसका स्मरण न रहेगा ।' इसीसे इस अत्यन्त भयंकर घोर संप्रामके समय मैं उठे भूल गया हूँ । शक्य ! भरतस्यसममें उत्पन्न हुआ यह अर्जुन बड़ा ही पराक्रमी, भीषण और शक्य संहार करनेवाला है । मालूम होता है, आज

बड़ा तुमल युद्ध होगा और यह अनेकों क्षत्रिय वीरोंको संतप्त कर डालेगा। तो भी सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनके साथ मैं अवश्य संप्राम कहूँगा और उसे मृत्युके मुखमें डालकर छोड़ूँगा। मुझे एक दूसरा अस्त्र भी मिला हुआ है, उसीसे मैं संप्राम-भूमिमें अनुचित तेजस्वी अर्जुनको धराशायी करूँगा। शल्य! मैं संप्रामभूमिमें अर्जुनके साथ जय या मृत्युको ही सामने रखकर युद्ध करूँगा। मेरे सिवा और ऐसा कोई वीर नहीं है जो इन्द्रके समान पराक्रमी पायके साथ अकेला रवाहट होकर युद्ध कर सके। तुम तो निरं मूर्ख और मूढ़चित्त हो। तुम मुझे अर्जुनके बल-पराक्रमकी बातें क्या सुनाते हो? अब मैं स्वयं ही संप्रामभूमिमें उसके पराक्रमसे प्रसन्न होकर क्षत्रियोंको समामें उसका वर्णन करूँगा। जो पुरुष अप्रिय, निष्ठुर, क्षुद्र, आक्षेप करनेवाला और क्षमाशीलताका तिरस्कार करनेवाला होता है, उसके-जैसे संकड़ोंको भी मैं मिट्टीमें मिला देता हूँ किंतु आज केवल समयकी ओर देखकर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। मेरा तो तुम्हारे साथ बड़ी सरलताका कर्ताव्य है, किंतु तुम टेढ़ी-टेढ़ी बातें करते हो। तुम बड़े ही मित्रद्रोही हो। मित्रता तो सात पग साथ रहनेसे ही जाती है। यह बड़ा ही कठोर समय आ गया है। राजा दुर्योधन रणभूमिमें आ गये हैं। मैं जहाँकी विजयेच्छासे यहाँ आया हूँ। किंतु तुम अर्जुनकी ही गुणगाया गाये जाते हो, जब कि वास्तवमें उसके प्रति आपका अट्ट प्रेमसम्बन्ध भी नहीं है। आज विजय प्राप्त करनेके लिये मैं अर्जुनपर अपना अग्रमेय और अजेय ब्रह्मास्त्र छोड़ूँगा। इस दिव्य अस्त्रके प्रभावसे मैं वण्डपाणि यम, पाराहस्त वरुण, गदाधर कुबेर और वज्रपाणि इन्द्रसे तथा किसी अन्य अततायो शत्रुसे भी नहीं डरता हूँ; अतः मुझे शौकृष्ण और अर्जुनसे भी किसी प्रकारका भय नहीं है।

परंतु मुझे एक भय अवश्य है—एक धारकी बात है मैं विजयके उद्देश्यसे अस्त्र पानेके लिये घूम रहा था। उस समय अनेकों भीषण बाणोंकी चलाविका अभ्यास करते-करते मैंने भूलसे एक होमघेनुके चट्टेको बाण मार दिया। धेचारा बल्ल्या निरंन घनमें चर रहा था। यह देखकर उसके स्वामी ब्राह्मणने कहा, वृत्ति तुमने इस निरपराध होमघेनुके बच्चेको मारा है, इसलिये संप्राममें लड़ते-लड़ते तुम्हारे रथका पहिया गड्ढेमें फँस जायगा और तुम बड़े आपत्तिमें फँस जाओगे। ब्राह्मणके उस प्रवृत्त शपथसे मुझे आज भी भय बना हुआ है। उस ब्राह्मणकी मैंने हजार गीर्षु और छः सौ बल देने चाहे, परंतु मैं उसे प्रसन्न न कर सका। मैं बड़े सत्कापूर्वक उस ब्राह्मणको अपना भरा-पूरा धर और भोगसामग्रियोंके सहित सारी सम्पत्ति देने चाही, किंतु



उसने उसे लेना स्वीकार न किया। इस प्रकार जब मैं प्रपल्लवृत्तके अपना धरपराध क्षमा करने लगा तो उस ब्राह्मणने कहा, 'सुतपुत्र! मैंने जो बात कही है वह तो बदल नहीं सकती। मिय्यामाषण प्रजाका नाश करनेवाला होता है। यदि मैं अपने कथनको मिय्या कर दूँगा तो मुझे पाप लगेगा। अतः धर्मकी रक्षाके लिये मैं मूठ तो बोल नहीं सकता। धूमसे मूठ बलवाकर तुम मेरी ब्राह्मी गतिका उच्छेद न करो। लोकमें कोई भी मेरी बातको मिय्या नहीं कर सकता। अतः अब तुम शान्त हो जाओ।'

'इस प्रकार घटपि तुमने मेरा तिरस्कार किया है तो भी मैंने सौहार्दवशा तुम्हें यह प्रसंग सुना दिया है। अब तुम चुप रहो और आगेकी बातपर ध्यान दो। तुम मेरे साथी, स्नेही और मित्र हो। इन तीन कारणोंसे ही अबतक जीवित बचे हुए हो। इस समय मेरे सामने राजा दुर्योधनका बड़ा भारी काम है और उसकी जिम्मेवारी भी मेरे ही ऊपर है। मैं तुम्हारे कठोर वचनोंको क्षमा करनेकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। शत्रुओंपर विजय तो तुम-जैसे हजारों शल्योंकी सहायताके बिना भी मैं पा सकता हूँ। किंतु मित्रसे द्रोह करना बड़ा पाप है, इसीसे तुम अबतक बचे हुए हो।'

शल्यने कहा—कर्ण! तुम अपने शत्रुओंके विषयमें जो कुछ कह रहे हो वह सब तो तुम्हारा बकवाद ही है। मैं

सहस्रों कर्णोंकी सहायताके बिना भी युद्धमें शत्रुओंको जीत सकता हूँ ।

मद्राजके इस प्रकार कहनेपर कर्ण उनसे दूने कटुवाक्य कहने लगा । वह बोला, 'मद्राज ! मैं जो बात कहता हूँ उसे जरा ध्यान देकर सुनो । इस बातकी चर्चा मैंने महाराज धृतराष्ट्रके पास सुनी थी । एक बार उनके महलमें कई ब्राह्मण अनेकों अद्भुत देशों और प्राचीन वृत्तान्तोंका वर्णन कर रहे थे । वहाँ एक बूढ़े ब्राह्मणने वाहीक और मद्रदेशकी निन्दा करते हुए कहा था—'जो हिमालय, गङ्गा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्रसे बाहर तथा सिन्धु और उसकी पाँच सहायक नदियोंके बीचमें स्थित है वह वाहीक देश धर्मवाह्य और अपवित्र है । उससे सर्वदा दूर रहना चाहिये । मैं एक गुप्त कार्यवश कुछ दिन वाहीक देशमें रहा था । उस समय मैंने उनके आचार-विचारके विषयमें बहुत-सी बातें जान ली थीं । जहाँ शाकल नामका नगर और आपगा नामकी नदी है वहाँ जलिका नामके वाहीक रहते हैं । उनका चरित्र बड़ा निन्दनीय होता है । ऐसा कौन दुष्टिमान् होगा जो उन दुश्चरित्र, संस्कारहीन और दुरात्मा वाहीकोंके साथ मुहूर्तभर भी रहना पसंद करेगा ।' उस ब्राह्मणने वाहीकोंको ऐसा दुराचारी बताया था । उनमें धर्म कैसे रह सकता है ? वाहीक देशके लोग उपनयन आदि संस्कारोंसे रहित होनेके कारण पतित समझे जाते हैं; उनकी स्त्रियाँ घरके नौकरोंसे मंथन कराकर उन्हें उत्पन्न करती हैं । वे धर्मभ्रष्ट तथा यज्ञके अधिकारसे वञ्चित होते हैं । इन्हीं सब कारणोंसे उनके दिये हुए हव्य, कव्य और दानको देवता, पितर तथा ब्राह्मणलोग नहीं स्वीकार करते—यह बात लोगोंमें खूब प्रसिद्ध है । एक विद्वान् ब्राह्मणने तो यहाँतक कहा था कि 'वाहीकलोग काठ और मिट्टीकी बनी हुई कुंडियोंमें भोजन करते हैं । उनमें शराव लिपटा रहता है, कुत्ते उन बर्तनोंको चाटते रहते हैं, तो भी उनमें खाते समय उन्हें तनिक भी घृणा नहीं होती । वे भेड़, जैतनी और गदहोंके दूध पीते हैं तथा उस दूधके दही, मक्खन और छाछ आदि भी खाते-पीते हैं । इतना ही नहीं, वे वर्णसंकर संतान उत्पन्न करनेवाले और दुराचारी होते हैं । शुद्ध-अशुद्धका विचार छोड़कर सब तरहका अन्न खा लेते हैं । इसलिये विद्वानोंको चाहिये कि 'आरट्ट' नामसे प्रसिद्ध उन वाहीकोंका संसर्ग त्याग दें ।'

'इसी प्रकार कारत्कर, माहिपक, कलिङ्ग, केरल, कफोटक, वोरक और दुर्धर्म नामक देशोंका भी त्याग करना उचित है । प्रत्यल, मद्र, गाग्धार, आरट्ट, खस, वसाति, सिन्धु तथा सौवीर देश प्रायः निन्दित और अपवित्र माने

गये हैं । पाञ्चाल देशके लोग वेदोंका स्वाध्याय करते हैं, कुरु देशके निवासी धर्मका आश्रय लेते हैं । मत्स्य देशके लोग सत्यवादी और शूरसेननिवासी यज्ञ करनेवाले होते हैं । पूरवके लोग दासवृत्ति करते हैं, दक्षिणी लोगोंका बर्ताव शूद्रोंके समान होता है । वाहीक लोग चोर तथा सौराष्ट्र निवासी वर्णसंकर होते हैं । मगध देशके मनुष्य इशारेसे ही बात समझ लेते हैं, कोसलकी प्रजा दृष्टिके संकेतको समझती है, कुरु और पाञ्चालके लोग आधी बात कह देनेपर पूरी बात समझ पाते हैं तथा शात्व देशके निवासी पूरी बात कहने से ही उसे हृदयङ्गम करते हैं । शिविदेशकी प्रजा पहाड़ी लोगोंकी तरह मूर्ख होती है । यवन लोग सब बातोंको अनायास ही समझ लेते और विशेषतः शूरवीर होते हैं । स्नेच्छ जातिके लोग अपने संकेतके अनुसार बर्ताव करते हैं । दूसरे सभी लोग पूरी बात कहे बिना उसे नहीं समझ पाते । वाहीक और मद्रदेशके मनुष्य तो पूरे गँवार होते हैं, वे कित्ती रयीका मुकाबला नहीं कर सकते । शल्य ! तुम भी ऐसे ही हो । तुममें उत्तर देनेकी भी योग्यता नहीं है । मैं तो डंकेकी चोट कहता हूँ—मद्रदेश पृथ्वीके समस्त देशोंका मल है । ऐसा समझकर तुम अपनी जवान बंद करो, मेरा विरोध न करो; नहीं तो पहले तुम्हारा ही वध करके पीछे श्रीकृष्ण और अर्जुनको माहूँगा ।'

शल्यने कहा—कर्ण ! तुम जित देशके राजा बने बैठे हो, उस अङ्गदेशमें क्या होता है ? अपने ही सगेसम्बन्धी जब रोगसे पीड़ित हो जाते हैं तो उनका त्याग कर दिया जाता है । अपनी ही स्त्री और वच्चोंको वहाँके लोग सरे बाजार बेचते हैं । उस दिन रयी और अतिरिथियोंकी गणना करते समय भीष्मजीने तुमसे जो कुछ कहा था, अपने उन दोषोंपर ध्यान दो और क्रोध छोड़कर शान्त हो जाओ । सभी देशोंमें ब्राह्मण हैं, सर्वत्र क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं तथा सब जगह सुन्दर व्रतका पालन करनेवाली सती साध्वी स्त्रियाँ भी हैं । सब देशोंमें अपने-अपने धर्मका पालन करनेवाले राजालोग हैं, जो दुष्टोंको दण्ड देते हैं । इसी प्रकार धार्मिक मनुष्य भी सर्वत्र होते हैं । कित्ती देशके सभी निवासी पाप ही करते हैं—यह बात ठीक नहीं है; उसी देशमें ऐसे-ऐसे सच्चरित्र और सदाचारी मनुष्य भी होते हैं, जिनकी बराबरी देवता भी नहीं कर सकते । कर्ण ! दूसरोंके दोष बतानेमें सभी लोग बड़े प्रवीण होते हैं, किन्तु उन्हें अपने दोषोंका पता नहीं रहता । अथवा अपने दोष जानते हुए भी वे ऐसे भोले बने रहते हैं, मानो उन्हें कुछ पता ही न हो ।

इस प्रकार कर्म और शल्यको परस्पर विवाद करते देख राजा दुर्योधनने उन दोनोंको रोका । उसने कर्मको मित्रभावेसे समझाया तथा शल्यके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की । उसके मना करनेसे कर्म मान गया और

उसने शल्यकी बातका कोई जवाब नहीं दिया । शल्यने भी शत्रुओंकी ओर अपना मुंह फेर लिया । तब राधानन्दन कर्मने हुँसकर शल्यको पुनः रथ आगे बढ़ानेकी आज्ञा दी ।

कौरव-व्यूहनिर्माण, कर्म और शल्यकी बातचीत, अर्जुनद्वारा संशप्तकोंका, कर्मद्वारा पाञ्चालोंका तथा भीमद्वारा भानुसेनका संहार और सात्यकिसे वृषसेनकी पराजय


सञ्जय कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर कर्मने पाण्डवोंका अनुपम व्यूह देखा, जो शत्रुसेनाका आक्रमण सहनेमें सर्वथा समर्थ था । घुट्टद्युम्न उस व्यूहकी रक्षा कर रहा था । उसे देख कर्म सिंहके समान गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा । अपनी युद्ध-चातुरीका परिचय देते हुए उसने पाण्डवोंके मुकाबलेमें कौरव-सेनाको व्यूह रचना की और पाण्डव-सैनिकोंका संहार करते हुए कर्मने राजा युधिष्ठिरको अपने दाहिने मागमें कर दिया ।

घृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! राधानन्दन कर्मने पाण्डवों तथा घुट्टद्युम्न आदि महान् धनुर्धरोंका सामना करनेके लिये कैसा व्यूह बनाया था ? व्यूहके दोनों बगलमें तथा आस-पास कौन-कौन वीर खड़े थे ? पाण्डवोंने भी मेरे पुत्रोंके मुकाबलेमें कैसा व्यूह रचा था ? फिर दोनों सेनाओंका अत्यन्त दारुण युद्ध कैसे आरम्भ हुआ ? उस समय अर्जुन कहाँ थे, जो कर्मने युधिष्ठिरपर चढ़ाई कर दी । यदि अर्जुन निकट होते तो युधिष्ठिरके पास कौन फटकने पाता ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! आपकी सेनाका व्यूह-निर्माण जिस प्रकार हुआ था, उसे सुनिये । कृपाचार्य, मगधदेशके योद्धा और कृतवर्मा—ये व्यूहके दाहिने पार्श्वमें मौजूद थे । इनके पक्षपोषक थे महारथी शकुनि और उनका पुत्र उलूक । ये दोनों चमचमाते भाले लिये हुए गन्धारदेशीय पृङ्गसवारों तथा पर्वतीय योद्धाओंके साथ आपकी सेनाका संरक्षण कर रहे थे । इसी प्रकार संग्राममें कुशल चौबीस हजार संशप्तक व्यूहके वामपक्षकी रक्षामें खड़े थे । इनके पक्षपोषक थे काम्बोज, शक और यवन । ये लोग रथ, घोड़े और पैदलोंकी सेनासे युक्त थे । बीचमे कर्म खड़ा था, जो सेनाके मुहानेकी रक्षा कर रहा था । कर्मके पुत्र कर्मकी रक्षामें खड़े थे; और पीली आँखोवाला दुःशासन हाथीपर सवार हो अनेकों सेनाओसे घिरा हुआ व्यूहके पृष्ठभागमें खड़ा था । उसके पीछे था स्वयं राजा दुर्योधन, जिसकी रक्षाके लिये उसके महाबली भाई मद्र और केकय वीरोंकी सेना लेकर उपस्थित थे । अश्वत्थामा, कौरवोंके प्रधान

महारथी, भतवाल गजराज और शूरवीर म्लेच्छ—ये दुर्योधनकी रथ-सेनाके पीछे चल रहे थे । इस प्रकार अनेकों पृङ्गसवारों, रथों और सजाये हुए हाथियोंसे भरा हुआ वह व्यूह देवता और असुरोंके व्यूहके समान शोभा पा रहा था ।

तत्परचात् सेनाके मुहानेपर कर्मकी उपस्थित देख राजा युधिष्ठिर धनञ्जयसे कहने लगे—‘अर्जुन ! देखो तो सही,



संग्राममें कर्मने कितना विशाल व्यूह बना रखा है ? पक्ष और प्रपक्षोंसे युक्त यह शत्रुसेना कैसी सुरोचित हो रही है ! इसे देखकर हमें ऐसी नीति बर्तनी चाहिये, जिससे शत्रुओंकी यह महत्सेना हमलोगोंको परास्त न कर सके ।’

राजाके ऐसा कहनेपर अर्जुनने हाथ जोड़कर कहा—‘आपने जैसी आज्ञा की है, बंसा ही किया जायगा ।’ युधिष्ठिर बोले—‘तुम कर्मके साथ, भीमसेन दुर्योधनके साथ, नकुल

वृषसेनके साथ और सहदेव शकुनिके साथ युद्ध करे ! शतानीकका द्वाशासनसे, सात्यकिका कृतवर्मसे, धृष्टद्युम्नका अश्वत्थामासे तथा मेरा कृपाचार्यके साथ युद्ध होगा । द्रौपदीके सभी पुत्र शिशुपण्डीकी साथ लेकर धृतराष्ट्रके अन्य पुत्रोंके साथ युद्ध करें । इस प्रकार हमारे पक्षके प्रधान-प्रधान वीर शत्रुओंके वीरोंका संहार करें ।'

धर्मराजके ऐसा कहनेपर धनञ्जयने 'तथास्तु' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और सैनिकोंको बँसा ही करनेका आदेश देकर वे स्वयं सेनाके मुहानेपर चले । महारथी अर्जुनको आते देख शल्यने रणोन्मत्त कर्णसे पुनः इस प्रकार कहा—'कर्ण ! तुम निरन्तर चारों ओर घूमते थे, वे कुन्तीनन्दन अर्जुन आ पहुँचे । उनसे रथका तुमुल नाद सुनायी दे रहा है । इधर यह अपशकुन होने लगा । वह देखो, रोंगटे खड़े कर देनेवाला अत्यन्त भयंकर कवचधारक केतु नामक ग्रह सूर्यमण्डलको घेरकर खड़ा है । तुम्हारी ध्वजा हिल रही है, घोड़े थर-थर काँपते हैं । मुझे तो इन अपशकुनोसे ऐसा जान पड़ता है कि आज सैंकड़ों और हजारों राजा मरकर रणभूमिमें शयन करेंगे । जिनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और शार्ङ्गधनुष शोभा पाते हैं तथा वक्षःस्थलमें कौस्तुभ-मणि देदीप्यमान रहती है, वे भगवान् श्रीकृष्ण हवासे बातें करनेवाले सफेद घोड़ोंको हाँकते हुए इधर ही आ रहे हैं । यह देखो, गाण्डीव धनुषकी टंकार होने लगी । अर्जुनके छोड़े हुए तीखे बाण शत्रुओंके प्राण ले रहे हैं । युद्धमें डटे हुए वीर राजाओंके मस्तकोंसे रणभूमि पटती जा रही है । जरा अपनी सेनाकी ओर तो दृष्टि डालो, जो अर्जुनकी मारसे अत्यन्त व्याकुल हो रही है ! ये पाण्डववीर दौड़-दौड़कर तुम्हारे पक्षके राजाओंका संहार करते हैं और हाथी, घोड़े, रथी तथा पैदलोंके समूहका नाश कर रहे हैं । यह देखो, अब महाबली अर्जुन संशप्तकोंकी ललकार सुनकर उधर ही बढ़ गये हैं और उन सभी शत्रुओंका संहार कर रहे हैं ।'

महाराज शल्यकी ऐसी बातें सुनकर कर्णने क्रोधमें भरकर कहा—'शल्य ! तुम भी देख लो, संशप्तक वीरोंने क्रोधमें भरकर अर्जुनपर चारों ओरसे धावा किया है । अब उनका यहाँ खात्मा समझो, वे रण-समुद्रमें डूब चुके हैं ।

शल्यने कहा—अरे ! जो दोनों भुजाओंसे पृथ्वीको उठा ले, क्रोध आनेपर सम्पूर्ण प्रजाको भस्म कर डालनेकी शक्ति रखता हो और देवताओंको स्वर्गसे नीचे गिरा सके, यही अर्जुनपर विजय पा सकता है । [बेचारे संशप्तकोंमें इतनी ताकत कहाँ है ?]

धृतराष्ट्रने प्रष्टा—सञ्जय ! जय सेनाओंकी मोर्चानिर्देश

हो गयी, उसके बाद अर्जुनने संशप्तकोंपर और कर्णने पाण्डवोंपर कैसे धावा किया—इसका वर्णन विस्तारके साथ करो ।

सञ्जयने कहा—महाराज ! उस समय शत्रुसेनाको व्यूहाकारमें खड़े देख अर्जुनने भी उसके मुकाबलेमें व्यूह-निर्माण किया । व्यूहके मुहानेपर धृष्टद्युम्न खड़ा था, जो सेनाकी शोभा बढ़ा रहा था । वह मूर्तिमान् कालके समान दिखायी पड़ता था । द्रौपदीके पुत्र चारों ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे । तदनन्तर, व्यूह वन जानेपर अर्जुन संशप्तकोंको देखकर क्रोधमें भर गये और गाण्डीव धनुष टंकारते हुए उनकी ओर दौड़े । संशप्तक भी मृत्युपर्यन्त युद्ध करते रहनेका निश्चय करके मनमें विजयकी अभिलाषा लेकर अर्जुनका वध करनेके लिये उनपर टूट पड़े तथा उनको सब ओरसे पीड़ित करने लगे । हमने अर्जुनका निवात कवचोंके साथ जँसा भयंकर युद्ध सुना है, संशप्तकोंके साथ छिड़ा हुआ वह तुमुल संग्राम भी बँसा ही भयानक था । अर्जुनने शत्रुओंके धनुष, बाण, तलवार, चक्र, फरसे, हथियारों सहित ऊपर उठी हुई भुजाएँ तथा नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र काट डाले और हजारों वीरोंके मस्तकोंको घड़से अलग कर दिया । उन्होंने पहले पूर्व दिशामें खड़े हुए शत्रुओंका वध करके फिर उत्तर दिशावालोंका संहार किया । इसके बाद दक्षिण और पश्चिमके सैनिकोंका सफाया किया । जैसे प्रलयकालमें रुद्र समस्त प्राणियोंका संहार करते हैं, उसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए अर्जुनने शत्रुओंकी सेनाका विनाश कर डाला ।

इसी समय पञ्चाल, चेदि और सृञ्जय देशके वीरोंका आपके सैनिकोंके साथ अत्यन्त दारुण संग्राम छिड़ा । कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनि कोसल, काशी, मत्स्य, करुण्य, केकय तथा शूरसेनदेशीय शूरवीरोंके साथ युद्ध करने लगे । उस युद्धमें असंख्य वीरोंका विनाश हो रहा था । दूसरी ओर दुर्योधन अपने भाइयोंको साथ लिये मद्रदेशीय महारथियों तथा प्रधान-प्रधान कौरववीरोंसे सुरक्षित रहकर पाण्डव, पाञ्चाल और चेदिदेशीय योद्धाओं एवं सात्यकसे लड़ते हुए कर्णकी रक्षा कर रहा था । उस समय कर्णने तीखे बाणोंसे पाण्डवोंको विशाल सेनाका महान् संहार किया और बड़े-बड़े रथियोंको रौंदते हुए उसने युधिष्ठिरको अधिक पीडा पहुँचायी । हजारों शत्रुओंके प्राण लिये । इसके बाद बाणोंकी ऋद्धि लगाकर उसने प्रभद्रकोंके सतहस्तर श्रेष्ठ वीरोंका सफाया कर दिया । फिर पञ्चोस बाणोंसे पञ्चोस पाञ्चाल वीरोंका वध कर डाला तथा सैंकड़ों और हजारों चेदिदेशीय योद्धाओंको साथकोंके निशाने बनाकर यमलोक पहुँचाया ।

चारों ओरसे घेर लिया। तब कर्णने पांच दुःसह बाण छोड़कर भानुदेव, चित्रसेन, सेनाविन्दु, तपन तथा शूरसेन—इन पांच पाञ्चालोंको मार डाला। इन शूरवीरोंके मारे जानेपर पाञ्चाल-सेनामें हाहाकार मच गया। पाञ्चालोंके दस रथियोने कर्णको घेर लिया। यह देख उसने अपने बाणोंसे उन्हें तुरंत मार गिराया। उस समय कर्णके पहिलोंकी रक्षा करनेवाले उसके दुर्जय पुत्र सुवेण और सत्यसेन प्राणोंका मोह छोड़कर युद्ध कर रहे थे। कर्णका ज्येष्ठ पुत्र व्यसेन स्वयं उसके पीछे रहकर पृष्ठभागकी रक्षा करता था।

तदनन्तर धृष्टद्युम्न, सात्यकि, द्रौपदीके पांचों पुत्र, भीमसेन, जनमेजय, शिशुगंडी, प्रधान-प्रधान प्रमद्वक, चंडि, कंकय, पञ्चाल तथा मत्स्यदेशीय वीर और नकुल-सहदेव—ये कवच आदिसे सुसज्जित हैं कर्णको मार डालनेकी इच्छासे उसको ओर दौड़े। पास आते ही उन्होंने कर्णपर बाणोंकी झड़ी लगा दी। कर्णके पुत्रों तथा आपके पक्षके अन्य योद्धाओंने उस समय उन वीरोंको आगे बढ़नेसे रोका। सुवेणने भल्ल मारकर भीमसेनका धनुष काट डाला और सात नाराचंसि उनके हृदयमें धाव करके बड़े जोरसे गर्जना की। तब तो भीमसेनने दूसरा धनुष हाथमें लिया और उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ाकर सुवेणका धनुष काट दिया; साथ ही क्रीधमें भरकर उन्होंने उसको दस बाणोंसे बंध डाला। इतना ही नहीं, भीमने कर्णपर भी सत्तर तीखे बाणोंका प्रहार

किया और दस बाणोंसे उसके पुत्र भानुसेनको धोड़े तथा सारथि आदिसहित ममलोक भेज दिया। तत्पश्चात् भीमने आपकी सेनाको पीड़ित करना आरम्भ किया। उन्होंने कृपाचार्य और कृतवर्मके धनुष काटकर उन दोनोंको लूब धायल किया। दुःशासनको तीन और शकुनिको छः बाणोंसे बंध करके उत्तुक और पतत्रि दोनोंको रथहीन कर डाला। इसके बाद सुवेणसे यह कहकर कि 'ते, अब तुम्हें भी मारे डालता हूँ' उन्होंने एक सायक अपने हाथमें लिया; परंतु कर्णने उसे काट दिया और भीमको भी तीन बाणोंसे आहत किया। अब भीमने दूसरा बहुत तेज बाण हाथमें लिया और उसे सुवेणको लक्ष्य करके छोड़ दिया; किंतु कर्णने उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये और भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे उसने उनपर तिहत्तर बाणोंका प्रहार किया। ड्यर, सुवेणने अपना धनुष लेकर नकुलकी दोनों भुजाओं तथा छातीमें पांच बाण मारे। तब नकुलने भी दस बाणोंसे सुवेणको घायल किया और भीषण सिहनाद करके कर्णको भी मयभीत कर डाला। यह देख सुवेणके श्रोत्रकी सीमा न रही, उसने नकुलको साठ तथा सहदेवको सात बाणोंसे घायल कर दिया। दूसरी ओर सात्यकि और व्यसेनमें युद्ध छिड़ा हुआ था। सात्यकिने तीन बाणोंसे व्यसेनके सारथिको मारकर एक भालेसे उसका धनुष काट डाला। फिर सात भल्लोंसे उसके धोड़ोंका काम तमामकर एक बाणसे ध्वजा काट दी और तीन सायकोंसे व्यसेनकी छातीमें धाव किया। उस प्रहारसे व्यसेनका सारा शरीर सुन्न हो गया। एक क्षणतक बेहोस रहने के बाद यह उठा और हाथमें डाल-तलवार ले सात्यकिको मार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर झपटा। व्यसेन अभी कूदकर आ ही रहा था कि सात्यकिने दस बाणोंसे उसकी डाल-तलवारके टुकड़े-टुकड़े कर दिये।

इसी समय उधर दुःशासनकी दृष्टि पड़ी; उसने व्यसेनको रथ और शस्त्रसे हीन देख तुरंत ही अपने रथपर बिठा लिया और दूर ले जाकर उसे दूसरे रथपर चढ़ाया। इसके बाद महारथी व्यसेनने वहाँ आकर द्रौपदीके पुत्रोंको तिहत्तर, सात्यकिको पांच, भीमसेनको चौंसठ, सहदेवको पांच, नकुलको तीस, शतानीकको सात, शिशुगंडीको दस, धर्मराजकी भी तथा अन्य वीरोंको भी अनेकों बाणोंसे पीड़ित किया। तत्पश्चात् यह पुनः कर्णके पृष्ठभागकी रक्षा करने लगा। सात्यकिने नये धने हुए लोहेके नौ बाणोंसे दुःशासनके मार्गच, धोड़े तथा रथको नष्ट करके उसके सलाटमें तीन बाण मारे। तब दुःशासन दूसरे रथपर सवार हो कर्णके उत्साह एवं बलकी बढ़ाता हुआ पाण्डवोंके साथ



तदनन्तर, कर्णको घृष्टद्युम्नने दस, द्रौपदीके पुत्रोंने तिहत्तर, सात्यकिने सात, भीमसेनने चौंसठ, सहदेवने सात, नकुलने तीस, शल्यनीकेने सात, शिशुपडीने दस, धर्मराजने भी तथा अन्य बीरोंने भी बहुत-से बाण मारे। सब जागोंने मृतपुत्रको भलीभाँति पीटित किया। तब कर्णने भी उनमेंसे प्रत्येकको दस-दस बाणोंसे बाँध डाला। उनके घोड़े, सारथि और रथ जब कर्णके बाणोंसे आच्छादित हो गये तो उन्होंने विवश होकर कर्णको आगे बढ़नेके लिये मार्ग दे दिया। अपने बाणोंकी

बीछारसे उन महान् धनुर्धरोंका मानपदेन करता हुआ कर्ण हाथियोंकी सेनामें घेरोक-टोक घुस गया। फिर चेदिबीरोंकी तीस रथियोंका सफाया करके उसने राजा युधिष्ठिरपर धावा किया। उस समय शिशुपडी, सात्यकि तथा पाण्डव लोग राजाको सब ओरसे घेरकर उनको रक्षा करने लगे। इसी प्रकार आपके पक्षवाले मूरवीर योद्धा भी इटकर कर्णकी रक्षा करने लगे। उस समय युधिष्ठिर आदि पाण्डव और कर्ण आदि हमलोग निर्भय होकर युद्धमें लग गये।

कर्ण और युधिष्ठिरका संग्राम, कर्णकी मूर्च्छा, कर्णद्वारा युधिष्ठिरका पराभव तथा भीमके द्वारा कर्णका परास्त होना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! कर्णने उस सेनाको चीरकर धर्मराजपर धावा किया। उस समय शत्रुओंने उसपर नाना प्रकारके हज़ारों अस्त्र-शस्त्र चलाये, किन्तु उसने उन सबके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इतना ही नहीं, अपने भयंकर बाणोंसे उसने शत्रुओंको घायल भी कर डाला। उनके मस्तकों, भुजाओं तथा जंघाओंको काट गिराया। कर्णके बाणोंसे मारे जाकर बहुत-से शत्रु धराशायी हो गये। बहुतोंके अङ्गसंग हो गये, अतः वे यूढ़ छोड़कर भाग चले। रणभूमिमें शत्रुपक्षके लाखों योद्धाओंकी लाशें बिछ गयीं। उस समय कर्ण प्राणियोंका अन्त करनेवाले यमराजके समान प्रोधमें भरा हुआ था। पाण्डव और पाञ्चाल सैनिकोंने उसे रोका अवश्य, किन्तु उन सबको रौंदकर वह युधिष्ठिरके पास जा घमका।

तदनन्तर कर्णको अपने पास ही खड़े देख युधिष्ठिरकी आँखें प्रोधमें लाल हो गयीं, उन्होंने उससे कहा—'मृतपुत्र ! तू युद्धमें सदा अर्जुनसे लाग-टाँट रखता है और दुष्योधनकी ही-में-ही भिनाकर हमलोगोंको कष्ट पहुँचाया करता है। आज तुझमें जो बल और पराक्रम हो वह सब दिखा, अपना महान् पुरुषार्थ प्रकट कर।' यह कहकर युधिष्ठिरने कर्णको दस बाणोंसे बाँध डाला। मृतपुत्र कर्णने भी हँसते-हँसते उन्हें दस बाणोंसे घायल करके तुरन्त बदला चुकताया। तब युधिष्ठिरने पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाला यमदण्डके समान भयंकर बाण धनुषपर चढ़ाया और मृतपुत्रका वध करनेकी इच्छामें उसे छोड़ दिया। वह वेगपूर्वक छोड़ा हुआ बाण विजलीके समान कड़ककर महाराथी कर्णकी बायीं कोखमें धँस गया। उसकी चोटसे कर्णकी मूर्च्छा आ गयी। उसका सारा गरीर मिथिल हो गया, धनुष हाथसे छूटकर

रथपर जा गिरा। मानो प्राण निकल गये हों, ऐसा निश्चेष्ट और अचेत होकर कर्ण शल्यके सामने ही गिर पड़ा। राजा युधिष्ठिरने अर्जुनका हित करनेकी इच्छामें कर्णपर पुनः प्रहार नहीं किया। कर्णको उस अवस्थामें देखकर कीरव-सेनामें हाहाकार मच गया।

योद्धे ही देखमें जब कर्णकी मूर्च्छा दूर हुई तो उसने विजयनामक अपना महान् धनुष तानकर तेज किये हुए बाणोंसे युधिष्ठिरकी प्रगति रोक दी। उस समय दो पाञ्चालराजकुमार युधिष्ठिरके पहियोंकी रक्षा कर रहे थे, उनके नाम थे चन्द्रदेव तथा इण्डघार। कर्णने उन दोनोंको क्षुरके समान आकारवाले दो बाणोंसे मार डाला। यह देख युधिष्ठिरने कर्णको पुनः तीस बाणोंसे घायल कर दिया। साथ ही सुपेण और सत्यसेनको भी तीन-तीन बाण मारे। फिर नव्वे बाणोंसे शल्यको और तिहत्तरसे मृतपुत्रको बाँध डाला तथा उसकी रक्षा करनेवाले योद्धाओंको भी तीन-तीन बाणोंसे घायल किया। तब कर्णने हँसकर अपना धनुष टंकारा और एक भल्ल तथा साठ बाणोंसे युधिष्ठिरको आहत करके जोरसे गर्जना की। फिर तो पाण्डव-पक्षके योद्धा बड़े अमर्यमें भरकर दौड़े और युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये कर्णकी बाणोंसे पीटित करने लगे। सात्यकि, चैकितान, युयुत्सु पाण्डव, घृष्टद्युम्न, शिशुपडी, द्रौपदीके पुत्र, प्रमदक, नकुल-सहदेव, भीमसेन, घृष्टकेतु तथा कश्यप, मत्स्य, केकय, काशी और कोसल देशके योद्धा—ये सब-के-सब कर्णपर बाणोंका प्रहार करने लगे। पाञ्चालदेशीय जनमेजय भी उसे सायकोंसे बाँधने लगा। पाण्डवबीर कर्णपर सब ओरसे वाराहकर्ण, नाराच, नातीक, बाण, वत्सदन्त, विपाट तथा क्षुरप्र आदि नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। यह देख

कर्णने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, उसके बाणोंसे सम्पूर्ण विशाणु आच्छादित हो गयीं। शराग्निकी लपटमे भूलसकर पाण्डवबीर भस्म होने लगे। तदनन्तर कर्णने हँसकर युधिष्ठिरका धनुष काट दिया, फिर पलक मारते ही उसने तेज किये हुए नखे बाणोंसे उनका कवच छिन्न-भिन्न कर दिया। कवच कट जानेपर बाणोंकी मारसे वे लोहलुहान हो गये और शोधमें भरकर उन्होंने कर्णके रथपर फौलादकी बनी हुई शक्ति छोड़ी किंतु कर्णने सात बाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। इसके बाद युधिष्ठिरने कर्णकी भुजा, ललाट और मस्तकमें चार तीमरोंका प्रहार करके हर्षनाद किया। कर्णके शरीरसे खूनकी धारा बहने लगी। उसने एक भल्लसे युधिष्ठिरकी ध्वजा काट डाली और तीनसे उन्हें भी आहत किया। फिर तरकस काटकर रथके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इस प्रकार पराजित होकर राजा युधिष्ठिर एक दूसरे रथपर बंठे और रणभूमिसे भाग चले।




कर्णने पीछा करके युधिष्ठिरके कंधेपर हाथ रखवा और उन्हें बलपूर्वक पकड़ लेना चाहता; इतनेहीमें उसे कुन्तीकी दिवे हुए अचनका स्मरण हो आया। इधर शल्य भी बोल उठे—'कर्ण! महाराज युधिष्ठिरको हाथ न लगाओ, मुझे भय है कि कहीं पकड़ते ही ये तुम्हें मारकर भस्म न कर डालें।'।

यह सुनकर कर्ण हँस पड़ा और पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका

उपहास करते हुए कहने लगा—'युधिष्ठिर! जिसका उन्व कुलमे जन्म हुआ है, जो क्षत्रियधर्ममें स्थित है, वह भयभीत होकर प्राण बचानेके लिये युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है? मेरा तो ऐसा विरवास है, तुम क्षत्रियधर्मके पालनमें निपुण नहीं हो; क्योंकि सदा ब्राह्मणोचित स्वाध्याय और यज्ञोंमें ही लगे रहते हो। कुन्तीनन्दन! आजसे सड़ाईमें न आना, शूरवीरोंका सामना न करना तथा उनके लिये मुँहसे अप्रिय बातें भी न निकालना। इतने बड़े समरमें तो कसो जानेका मान न लेना। यदि युद्धमें हम-जैसे लोगोंने कुछ कड़वी बात कहोगे तो उसका यही अथवा इससे भी कठोर फल मिलेगा। राजन्! अपनी छावनीमें जाओ अथवा शोकृष्ण और अर्जुन जहाँ हैं, वहाँ ही चले जाओ।' ऐसा कहकर कर्णने युधिष्ठिरको छोड़ दिया और पाण्डवसेनाका संहार करने लगा।

राजा युधिष्ठिर बहुत लज्जित होकर तुरंत बहसित हट गये और धृतकीर्तिके रथपर बँठकर कर्णका पराक्रम देखने लगे। अपनी सेनाको खदेड़ी जाती हुई देख धर्मराजने योद्धाओंसे कुपित होकर कहा—'अरे! क्यों चुप बंठे हो, मारो इन कौरवोंको।' राजाको आज्ञा पाते ही भीमसेन आदि पाण्डव-महाराथी आपके पुत्रोंपर टूट पड़े। उस समय रथ, हाथी और घोड़ोंपर सवार हुए योद्धाओं तथा शस्त्रोंका भयंकर शब्द होने लगा और उठो, मारो, आगे बढ़ो,



दबोच लो—इस प्रकार कहते हुए वे आपसमें मारकाट करने लगे । उन आक्रमणकारियोंके प्रचण्ड वेगको सहन करनेकी अपनेमें शक्ति न देखकर आपके पुत्रोंकी विशाल सेना भागने लगी ।

यह देख दुर्योधनने अपने योद्धाओंको सब ओरसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वह पुकारता ही रह गया, सेना पीछे न लौटी । कर्णकी भी दृष्टि उधर पड़ी, उसने कौरव-सैनिकोंको मालिकोंके साथ भागते देख महाराज शल्यसे कहा—‘अब तुम भीमके रथके पास चलो ।’ शल्यने अपने घोड़ोंको भीमकी ओर बढ़ाया ।

कर्णको आते देख भीमसेन क्रोधमें भर गये । उन्होंने सूतपुत्रको मार डालनेका विचार करके वीरवर सात्यकि तथा धृष्टद्युम्नसे कहा—‘अब तुमलोग महाराज युधिष्ठिरकी रक्षा करो । अभी मेरे देखते-देखते उन्हें बहुत बड़े संकटसे किसी तरह छुटकारा मिला है । दुरात्मा कर्णने दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये मेरे सामने ही उनकी समस्त युद्ध-सामग्रीको तहस-नहस कर डाला है । इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ है; अब मैं उसका बदला चुकाऊंगा । आज घोर संग्राम करके या तो मैं ही कर्णको मार डालूंगा या वही मेरा

वध करेगा—यह मैं सच्ची बात बता रहा हूँ । राजाको मैं तुम्हें धरोहरके रूपमें देता हूँ; उनकी रक्षाके लिये सब प्रकारसे यत्न करना ।’

यों कहकर महाबाहु भीमसेन अपने महान् सिंहनादसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए कर्णकी ओर बढ़े । उन्हें चढ़कर आते देख कर्णने क्रोधमें भरकर उनको छातीमें नाराचका प्रहार किया । इस प्रकार सूतपुत्रके हाथों घायल होकर भीमने भी उसे बाणोंसे ढक दिया और तेज क्रिये हुए नौ बाण मारकर उसको घायल कर डाला । तब कर्णने भीमके धनुषके दो टुकड़े कर दिये । भीमने दूसरा धनुष उठाया और कर्णके मर्मस्थानोंको बंधकर बड़े जोरसे गर्जता की । फिर सूतपुत्रका वध करनेके लिये उन्होंने पर्वतोंको भी विदीर्ण कर डालनेवाला एक बाण धनुषपर चढ़ाया और उसे उसकी ओर छोड़ दिया । उस वज्रके समान वेगशाली बाणने सूतपुत्रके शरीरको छेद डाला । सेनापति कर्ण बेहोश होकर रथकी बँठकमें गिर पड़ा । उसे मूर्च्छित देख मद्रराज शल्य कर्णको रणभूमिसे दूर हटा ले गये । इस प्रकार कर्णको परास्त करके भीमसेनने कौरवसेनाको मार भगाया ।

भीमसेनके द्वारा धृतराष्ट्रके कई पुत्रों तथा कौरवयोद्धाओंका भीषण संहार

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय ! भीमसेनने जो कर्णको रथकी बँठकमें गिरा दिया—यह तो उन्होंने बड़ा बुझकर काम किया । उसीके धरोसे दुर्योधन मुझसे बार-बार कहा करता था कि ‘अकेले कर्ण ही पाण्डवों और सृञ्जयोंको युद्धमें मार डालेगा ।’ अब भीमके हाथों कर्णको पराजित देख मेरे पुत्र दुर्योधनने क्या किया ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! उस महासंग्राममें कर्णको युद्धसे विमुख होते देख दुर्योधनने अपने भाइयोंसे कहा—‘तुम लोग शीघ्र जाकर कर्णकी रक्षा करो । वह भीमसेनके भयके कारण अगाध संकट-समुद्रमें डूब रहा है ।’ राजाकी आज्ञा पाकर वे क्रोधमें भर गये और जिस प्रकार पतंगे

आगकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे उनपर दूट पड़े । श्रुतर्वा, दुर्धर, काथ, विवित्तु, विकट, सम, निषंगी, कवची, पाशी, नन्द, उपनन्द, दुष्प्रघर्ष, सुबाहु, वातवेग, सुवर्चा, धनुर्गर्ह, दुर्मद, जलसन्ध, शल और सह—ये लोग रथियोंसे घिरे हुए दौड़े और भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये । फिर तो उन्होंने नाना प्रकारके बाणोंकी झड़ी लगा दी । महाबली भीमसेन उनके प्रहारोंसे पीड़ित हो रहे थे, तो भी उन्होंने आपके पुत्रोंके पांच सौ रथोंकी ध्वजियाँ उड़ा दीं और पचास रथियोंको घमलीक भेज दिया । तदनन्तर, क्रोधमें भरे हुए भीमने एक भल्ल मारकर विवित्तुके मस्तकको धड़से अलग कर दिया । उसकी मृत्यु होती देख सभी भाई



भीमपर टूट पड़े। तब उन्होंने दो भल्लोंसे आपके दो पुत्र विकट और सहके प्राण ले लिये। सगे हाथ भीमसेनने तेज किये हुए नाराचसे मारकर कायको भी यमलोक भेज दिया। महाराज ! इस प्रकार जब आपके वीर धनुर्धर पुत्र मारे जाने लगे तो रणभूमिमें बड़े जोरसे हाहाकार मचा। उनकी सेनाका संहार करके भीमने नन्द और उपनन्दको भी भीतके घाट उतारा। अब तो आपके पुत्र भयसे घबरा उठे। वे भीमसेनको प्रलयकालीन यमराजके समान भयंकर जानकर वहाँसे भाग गये। आपके इतने पुत्र मारे गये—यह देख कर्णका मन बहुत उदास हो गया। उसकी आत्मासे मद्रराजने पुनः धोड़े बढ़ाये। वे धोड़े बड़े वेगसे आकर भीमसेनके रथसे भिड़ गये। फिर तो एक दूसरेका वध चाहनेवाले कर्ण और भीमसेनमें बालि-मुषीवकी प्रति भयंकर युद्ध होने लगा। कर्णने अपने मुद्दू धनुषको कानतक लेंचकर तीन बाणोंसे भीमसेनको बाँध डाला। उन्होंने भी एक भयंकर बाण हाथमें लेकर उसे कर्णपर चलाया। उस बाणने कर्णका कवच फाड़कर उसके शरीरको छेद दिया। उस प्रचण्ड प्रहारसे कर्णको बड़ी ध्यया हुई, वह ध्यातुल होकर काँपने लगा। तदनन्तर रोप और अमर्षमें भरकर उसने भीमसेनको पञ्चोत्स बाण मारे। फिर अनेकों सायकोंका प्रहार करके एक बाणसे उनकी ध्वजा काट डाली। इसके बाद एक भल्लसे मारकर

उनके सारथिको भी भीतके घाट उतार दिया। सगे हाथ धनुष भी काट डाला; फिर एक ही मूहत्तमें हँसते-हँसते उसने भीमसेनको रथहीन कर दिया।

रथके टूटते ही महाबाहु भीमसेन गदा हाथमें लिये हँसते-हँसते कूद पड़े। फिर वेगसे उछलकर वे आपकी सेनामें घुस गये और गदा मार-मारकर समस्त सैनिकोंका संहार करने लगे। पंदल होते हुए ही उन्होंने अपनी गदासे सात सौ हाथियोंको उनके सवारों, ध्वजाओं और अस्त्र-शास्त्रोंसहित नष्ट कर डाला। इसके बाद शत्रुनिके अत्यन्त घसवान् यावन हाथियोंको मार गिराया तथा एक सौसे अधिक रथों



और सैकड़ों पंदलोंका संहार कर डाला। ऊपरसे सूर्यदेव तथा रहे थे और सामने भीमसेन संताप दे रहे थे, इससे समस्त योद्धा भीमके डरसे मँदान छोड़कर भाग निकले। इतनेहीमें दूसरी ओरसे पाँच सौ रथियोंने आकर भीमपर चारों ओरसे बाणवर्षा आरम्भ कर दी। परंतु भीमने उन सबको गदासे मारकर यमलोक पठा दिया। साय ही उनकी ध्वजा-पताका और आयुधोंके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तत्परचात् शत्रुनिके भेजे हुए तीन हजार धुड़सवारोंने हाथोंमें शक्ति, ऋषि और प्राप्त लेकर भीमसेनपर धावा किया। भीमसेनने बड़े वेगसे आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया और तरह-तरहके पंतरे धदलते हुए उन्होंने उन सबको गथसे

मार डाला । इसके बाद भीमसेन दूसरे रथपर सवार हुए और क्रोधमें भरकर कर्णका सामना करनेके लिये पहुँच गये ।

उस समय कर्ण और युधिष्ठिरमें युद्ध चल रहा था । कर्णने अपने वाणोंसे युधिष्ठिरको आच्छादित कर दिया और उनके सारथिको भी मार गिराया । सारथिके न होनेसे घोड़े भाग चले । उनके रथको पलायन करते देख महारथी कर्ण वाणोंकी बौछार करता हुआ उनका पीछा करने लगा । कर्णको धर्मराजका पीछा करते देख भीमसेन क्रोधसे जल गये । उन्होंने अपने वाणोंसे पृथ्वी और आकाशको चारों ओरसे ढक दिया । इसके बाद कर्णपर भी भीषण वाणवर्षा की । कर्ण लौट पड़ा । उसने भी सब ओरसे तीखे वाणोंकी वर्षा करके भीमको आच्छादित कर दिया । कर्ण और भीम दोनों ही धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ थे । उस समय एक दूसरेपर विचित्र-विचित्र वाणोंका प्रहार करते हुए उन दोनोंने अन्तरिक्षमें वाणोंका जाल-सा बुन दिया । यद्यपि उस वक्त मध्याह्नका सूर्य तप रहा था, तो भी उन दोनोंके सायकसमूहोंसे रूक जानेके कारण उसकी प्रखर प्रभा नीचे नहीं आने पाती थी । उस समय शकुनि, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य—ये पाँच धीरे पाण्डवसेनाते लोहा ले रहे थे । उनको डटे हुए देख भागनेवाले कौरव योद्धा भी पीछे लौट पड़े । फिर तो दोनों पक्षकी सेनाएँ एक-दूसरीसे गुप्त गयीं । उस दुपहरीमें जैसा भयंकर युद्ध हुआ, वैसा मैंने न तो कभी देखा था और न सुना ही था । एक ओरके सैनिकोंका झुंड दूसरी ओरके झुंडसे सहसा जा भिड़ा । भीषण मारकाट मच गयी । छूटते हुए वाण-समूहोंकी आवाजें बहुत दूरतक सुनायी देने लगीं । उस समय महान् सुयश चाहनेवाले दोनों पक्षके

योद्धाओंकी सिंहगर्जना एक क्षणके लिये भी बंद नहीं होती थी । दोनों दलोंमें इतना भयानक युद्ध हुआ कि खूनकी नदियाँ बह चलीं । कितने ही क्षत्रिय उनमें डूबकर घमलोक




पहुँच जाते थे । सब ओर मांस-भोजी जन्तुओंका चीत्कार ही रहा था । कौए, गिद्ध और बक आदि पक्षी मड़रा रहे थे । उस भयंकर संग्राममें कौरवसेना बहुत कष्ट पाने लगी । उस समय उसकी दशा समुद्रमें टूटी हुई नौकाके समान ही रही थी ।

अर्जुन द्वारा संशप्तकोंका संहार

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! जिस समय क्षत्रियोंका संहार करनेवाला वह भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर बड़े जोर-जोरसे गाण्डीव धनुषकी टंकार सुनायी देती थी । वहाँ अर्जुन संशप्तकोंका तथा नारायणी सेनाका संहार कर रहे थे । महारथी सुशमनि अर्जुनपर वाणोंकी बौछार की तथा संशप्तकोंने भी उन्हें अपने तीरोंका निशाना बनाया । तत्पश्चात् सुशमनि अर्जुनको दस वाणोंसे बौधकर श्रीकृष्णकी दाहिनी भुजामें भी तीन वाण मारे । फिर एक मल्ल मारकर उसने अर्जुनकी ध्वजा छेद डाली । ध्वजापर आघात लगते ही उसके ऊपर बैठे हुए विशाल

वानरने चड़े जोरसे गर्जना करके सबको भयभीत कर दिया । उसका भयंकर नाद सुनकर आपकी सेना थर्रा उठी । डरके मारे कोई हिल-डुलतक न सका । थोड़ी देरमें जब उन्हें होश आया तो सब-के-सब अर्जुनपर वाणोंकी बौछार करने लगे । फिर सबने मिलकर अर्जुनके विशाल रथको घेर लिया । यद्यपि उनपर तीखे वाणोंकी मार पड़ रही थी, तो भी वे रथको पकड़कर जोर-जोरसे चिल्लाने लगे । किन्हींने घोड़ोंको पकड़ा, किन्हींने पहियोंको । कुछ लोगोंने रथकी ईषा पकड़नेका उद्योग किया । इस प्रकार हजारों योद्धा रथको जबरदस्ती पकड़कर सिंहावाद करने लगे । कुछ



लोगोंने भगवान् श्रीकृष्णकी दोनों बांहें पकड़ लीं; कई योद्धाओंने रथपर चढ़कर अर्जुनको भी पकड़ लिया। श्रीकृष्णने अपनी बांहें मटककर उन लोगोंको जमीनपर गिरा दिया तथा अर्जुनने भी अपने रथपर चढ़े हुए कितने ही पंढलोंको धक्के देकर नीचे गिराया। फिर आसपास खड़े हुए संशप्तक योद्धाओंको निकटसे युद्ध करनेमें उपयोगी बाण मारकर ढक दिया। तदनन्तर, अर्जुनने देवदत्त तथा श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य नामक शङ्ख बजाया। उनकी ध्वनिसे पृथ्वी और आकाश गूँजने-लगे। शङ्खोंकी आवाज सुनकर संशप्तकोंकी सेना भयसे सिहर उठी। फिर

अर्जुनने नागास्त्रका प्रयोग करके उन सबके पैर बाँध दिये। पैर बाँध जानेसे निरचेष्ट होकर वे पत्थरके पुतले-जैसे दिलायी देने लगे। उसी अवस्थामें अर्जुनने उनका संहार आरम्भ किया। जब मार पड़ने लगी तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और अपने समस्त अस्त्र-शस्त्रोंको अर्जुनपर छोड़नेका प्रयास किया; परंतु पैर बाँधे होनेके कारण वे हिल भी न सके। अर्जुन उनका वध करने लगे।

इसी समय मुशमनि गरुडास्त्रका प्रयोग किया। उससे बहुतसे गरुड़ प्रकट हो-होकर सपोंको खाने लगे। उन गरुड़ोंको देख संपगण लापता हो गये। इस प्रकार नागयाशसे छुटकारा पाये हुए योद्धा अर्जुनके रथपर सायकों तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। तब अर्जुनने बाणोंकी घोछारसे उनको अस्त्र-वर्षाका निवारण करके योद्धाओंका संहार आरम्भ किया। इतनेमें मुशमनि अर्जुनको छातोंमें तीन बाण मारे। इससे अर्जुनको गहरी चोट लगी और वे ध्वंसित होकर रथके पिछले भागमें बैठ गये। योद्धी ही देरमें उन्हें चेत हुआ, फिर तो उन्होंने तुरंत ही ऐन्द्रास्त्रको प्रकट किया। उससे हजारों बाण निकल-निकलकर चारों दिशाओंमें छा गये और आपकी सेना तथा छोड़े-हाथियोंका विनाश करने लगे। इस प्रकार सेनाका संहार होता देख संशप्तकों तथा नारायणी सेनाके ग्वालोंकी बड़ा भय हुआ। उस समय वहाँ एक भी पुरुष ऐसा नहीं था, जो अर्जुनका सामना कर सके। सब चीरोंके देखते-देखते आपकी सेना बट रही थी। वह स्वयं निरचेष्ट हो गयी थी, उससे पराक्रम करते नहीं बनता था। यह सब मेरी आँखों-देखी घटना है। अर्जुनने वहाँ दस हजार योद्धाओंकी मार डाला था। संशप्तकोंमेंसे जो शेष बच गये थे उन्होंने मर जाने या विजय पानेका निरवय करके फिरसे अर्जुनको घेर लिया। फिर तो वहाँ अर्जुनके साथ आपके सैनिकोंका बड़ा भारी संग्राम हुआ।

कृपाचार्यके द्वारा शिखण्डीकी पराजय, सुकेतुका वध, धृष्टद्युम्नके द्वारा कृतवर्मा और दुर्योधनका परास्त होना तथा कर्णद्वारा पाञ्चाल आदि महारथियोंका संहार

सञ्जय कहते हैं—राजन्! इस प्रकार कौरव-सेनाको अर्जुनकी मारसे पीड़ित होती देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, अरवत्यामा, उलूक, शकुनि, दुर्योधन तथा उसके भाइयोंने आकर बचाया। उस समय कुछ देरतक वहाँ घोर संग्राम हुआ, कृपाचार्यने बाणोंकी इतनी घोछार की कि टिड्डियोंके समान उन बाणोंसे सृञ्जयों (पाञ्चालों) की सारी सेना

आच्छादित हो गयी। यह देख शिखण्डी बड़े क्रोधमें भरकर उनका सामना करनेके लिये गया और उनके ऊपर चारों ओरसे बाणवर्षा करने लगा। किंतु कृपाचार्य अस्त्रविद्याके महान् पण्डित थे। उन्होंने शिखण्डीकी बाणवर्षा शान्त करके उसे दस बाणोंसे बाँध डाला। फिर तीखे बाणोंके प्रहारसे उसके सारथि और घोड़ोंको भी यमलोक पठा दिया।

शिखण्डी सहसा उस रथसे कूद पड़ा और हाथोंमें डाल-तलवार



लेकर कृपाचार्यपर रूपटा । उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख कृपाचार्यने अनेकों वाण मारकर ढक दिया । शिखण्डीने भी बारंबार तलवार घुमाकर कृपाचार्यके वाणोंको काट डाला । तब कृपाचार्यने अपने सायकोंसे शीघ्रतापूर्वक शिखण्डीकी ढाल काट दी । अब वह सिर्फ तलवार लेकर ही उनकी ओर दौड़ा । कृपाचार्य अपने वाणोंसे उसे बार-बार पीडा देने लगे । उसकी यह अवस्था देख चित्रकेतु-नन्दन सुकेतु तुरंत वहाँ आ पहुँचा और दादा कृपाचार्यपर वाणोंकी ऋड़ी लगाने लगा । शिखण्डीने देखा कि ब्राह्मण देवता अब सुकेतुके साथ उलझे हुए हैं, तो वह मौका पाकर तुरंत भाग निकला । तदनन्तर सुकेतुने कृपाचार्यको पहले नौ वाणोंसे बाँधकर फिर तिहत्तर तीरोंसे घायल किया । इसके बाद उनके वाणसहित धनुषको काटकर सारथिके मर्मस्थानोंमें भी घाव किया ।

यह देख कृपाचार्यने तीस वाणोंसे सुकेतुके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंमें चोट पहुँचायी । इससे सुकेतुका सारा शरीर काँप उठा, वह बहुत व्याकुल हो गया । उसी अवस्थामें कृपाचार्यने एक क्षुरप्र मारकर उसके मस्तकको काट गिराया । सुकेतुके मारे जानेपर उसके अप्रगामी सैनिक भयभीत हो सब दिशाओंमें भाग गये ।

दूसरी ओर धृष्टद्युम्न और कृतवर्मा लड़ रहे थे ।

धृष्टद्युम्नने क्रोधमें भरकर कृतवर्माकी छातीमें नौ बाण मारे तथा उसके ऊपर सायकोंकी भयंकर दौछार की । कृतवर्माने भी हजारों वाण मारकर उस शस्त्रवर्षाको शान्त कर दिया, यह देख धृष्टद्युम्नने कृतवर्माके निकट पहुँचकर उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया और तुरंत ही उसके सारथिको भी तीखे मालेसे मारकर यमलोकका अतिथि बनाया । इस प्रकार महाबली धृष्टद्युम्नने अपने बलवान् शत्रुको जीतकर सायकोंकी वर्षासे कौरव-सेनाका बढ़ाव रोक दिया । तब आपके सैनिक सिहनाद करके धृष्टद्युम्नपर दूट पड़े, फिर घमासान युद्ध होने लगा ।

उस दिन अर्जुन संशप्तकोंमें, भीमसेन कौरवोंमें और कर्ण पाञ्चालोंमें घुसकर क्षत्रियोंका संहार कर रहे थे । एक ओर दुर्योधन नकुल-सहदेवसे मिड़ा हुआ था । उसने क्रोधमें भरकर नौ वाणोंसे नकुलको और चार सायकोंसे उसके घोड़ोंको बाँध डाला । फिर एक क्षुराकार वाणसे उसने सहदेवकी सुवर्णमयी ध्वजा काट दी । नकुलने भी क्रुपित होकर आपके पुत्रको इक्कीस वाण मारे तथा सहदेवने पाँच वाणोंसे उसको घायल किया । अब तो आपका पुत्र क्रोधसे आगबबूला हो गया, उसने उन दोनों भाइयोंकी छातीमें पाँच-पाँच वाण मारे । फिर दो भल्लोंसे उन दोनोंके धनुष काट डाले । इसके बाद उन्हें इक्कीस वाणोंसे घायल किया ।

धनुष कट जानेपर उन दोनों भाइयोंने पुनः दूसरे धनुष लेकर दुर्योधनपर बड़ी भारी वाणवर्षा आरम्भ की । दुर्योधन भी वाणोंकी ऋड़ी लगाकर उन दोनोंको रोकने लगा । उस समय उसके धनुषसे निकलते हुए वाण सम्पूर्ण दिशाओंको ढकते दिखायी दे रहे थे । आकाश आच्छन्न होकर वाणमय बन गया था । नकुल-सहदेवको उसका रूप प्रलयकालीन यमराजके समान दिखायी पड़ता था । ठीक उसी समय पाण्डव-सेनापति धृष्टद्युम्न वहाँ आ पहुँचा और नकुल-सहदेवको पीछे करके अपने वाणोंसे दुर्योधनकी प्रगति रोकने लगा । आपके पुत्रने हँसकर धृष्टद्युम्नको पहले पच्चीस वाण मारे, फिर पँसठ वाण मारकर सिहनाद किया । तत्पश्चात् उसने एक तीखे क्षुरप्रसे धृष्टद्युम्नके वाणसहित धनुष और दस्ताने काट दिये ।

तब धृष्टद्युम्नने दुर्योधनपर पंद्रह वाण छोड़े । वे वाण उसका कवच छेदते हुए पृथ्वीमें समा गये । इससे दुर्योधनको बहुत क्रोध हुआ । उसने एक भल्ल मारकर धृष्टद्युम्नका धनुष काट डाला । फिर बड़ी शीघ्रताके साथ उसकी भ्रुकुटियोंके बीचमें उसने दस वाण मारे । धृष्टद्युम्नने भी अपना कटा हुआ धनुष फेंककर दूसरा धनुष और सोलह भल्ल अपने हाथमें लिये ।

द्वारा उसने दुर्योधनके घोड़ों और सारथिकों मार डाला, एकसे उसका धनुष काट दिया और दस भल्लोंसे सामग्रियों-सहित रथ, छत्र, ध्वजा, शक्ति, गदा और खड्ग आदिको नष्ट कर डाला। राजा दुर्योधन रथहीन हो गया, उसके कवच और आयुध भी नष्ट हो गये—यह देख उसके भाई उसकी रक्षामें आ पहुँचे। दण्डधार नामक राजा उसे अपने रथपर बिठाकर रणभूमिसे बाहर हटा ले गया।

तदनन्तर कर्णने धृष्टद्युम्नपर धावा किया। उन दोनोंमें महान् युद्ध छिड़ गया। उस समय पाण्डवोंका या हमारे पक्षका कोई भी योद्धा पीछे पैर नहीं हटाता था। पाञ्चाल देशके लड़ाकू धीर विजयकी अभिलाषासे बड़ी फुर्तकी साथ कर्णपर दूट पड़े। उन्हें इस प्रकार विजयके लिये प्रयत्न करते देख कर्ण उनके अप्रगामी वीरोंको बाणोंसे मारने लगा। उसने व्याघ्रकेतु, सुरार्मा, चित्र, उप्रायुध, जय, श्रुवल,

रोचमान तथा सिंहसेनको अपने बाणोंका निशाना बनाया। उपर्युक्त वीरोंने भी रथोंसे कर्णको घेर लिया। कर्ण बड़ा प्रतापी था, उसने अपने साथ युद्ध करते हुए उन आठों वीरोंको आठ तीखे बाणोंसे मारकर खूब घायल कर दिया। फिर कई हजार योद्धाओंका सफाया कर डाला। तत्परन्तु जिष्णु, देवाधि, मद्र, दण्ड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिंहकेतु, रोचमान और शलभको तथा चेदिदेशीय महारथियोंको भी मीतके घाट उतारा। इस युद्धमें कर्णने जैसा पराक्रम किया, वैसा न तो भीष्मने, न द्रोणने और न दूसरे योद्धाओंने ही कभी किया था। उसने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल—इन सबका महान् संहार किया। कर्णका वह पराक्रम देख भेरे मनमें ऐसा विश्वास होने लगा कि अब एक भी पाञ्चाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा।

उस महासंग्राममें कर्णको पाञ्चालसेनाका संहार करते देख राजा युधिष्ठिर बड़े क्रोधमें भरकर उसकी ओर बौड़े। साथ ही धृष्टद्युम्न, द्रौपदीके पुत्र तथा अन्य संकड़ों वीरोंने पहुँचकर कर्णको चारों ओरसे घेर लिया। शिशुण्डी, सहदेव, नकुल, जनमेजय, सात्यकि तथा बहुत-से प्रमदक योद्धा धृष्टद्युम्नके आगे होकर कर्णपर अस्त्र-शस्त्रोंकी बृष्टि करने लगे। जैसे गहड़ अकेला होकर भी बहुत-से सर्पोंको दबोच लेता है, उसी प्रकार कर्ण अकेला हो चैरि, पाञ्चाल और पाण्डववीरोंपर प्रहार कर रहा था।

जब कर्ण पाण्डवोंसे उलझा हुआ था, उसी समय भीमसेन रणमें सब ओर विचरकर अपने धमदण्डके समान बाणोंसे बाहीक, केकय, वसातीय, मद्र तथा सिन्धुदेशीय योद्धाओंका संहार कर रहे थे। भीमके बाणोंसे मारे गये रथियों, घुड़सवारों, सारथियों, पैदल योद्धाओं तथा हाथी-घोड़ोंकी लाशोंसे जमीन पट गयी थी। सारों मेना भीमसेनके भयसे उत्साह छो बँटी थी। किसीसे कुछ करते नहीं बनता था। सबपर दैन्य छा रहा था। कर्ण पाण्डवसेनाको भगा रहा था और भीम कौरववाहिनीको खदेड़ रहे थे—इस प्रकार रणभूमिमें विचरते हुए उन दोनों वीरोंकी अद्भुत शोभा हो रही थी।



अर्जुनके द्वारा संशप्तकोंका संहार और अश्वत्थामाकी पराजय

सञ्जय कहते हैं—एक ओर तो यह भयंकर संग्राम चल रहा था और दूसरी ओर अर्जुन संशप्तक-सेनाका विनाश कर रहे थे। शत्रुओंको जीतकर विजयी अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा—जनादरन ! ये संशप्तक तो अब युद्धमें

भेरे बाणोंकी चोट न सह सकनेके कारण मूंड-के-मूंड भागे जा रहे हैं। दूसरी ओर युद्धियोंकी बहुत बड़ी सेना भी बिदीर्ण हो रही है। उधर कर्ण बड़े आनन्दके साथ राजाओंकी सेनामें विचर रहा है, देखिये न, उसकी पताका बिलायी पेंती

है। आप तो जानते ही हैं, कर्ण कितना बलवान् और पराक्रमी है। दूसरे कोई महारथी उसे युद्धमें नहीं जीत सकते। वह हमारी सेनाको खदेड़ रहा है, इसलिये अब उधर ही चलिये। यहाँकी लड़ाई बंद करके महारथी कर्णके पास चलना चाहिये। मेरी तो यही राय है, आगे आपकी जैसी इच्छा।

यह सुनकर भगवान् हँसते हुए बोले—‘पाण्डुनन्दन ! अब तुम शीघ्र ही कौरवोंका नाश करो’ ऐसा कहकर गोविन्दने घोड़ोंको हाँक दिया। वे हंसके समान सफेद रंगवाले घोड़े श्रीकृष्ण और अर्जुनको लिये हुए आपकी विशाल सेनामें घुस गये। उनके पहुँचते ही आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। अर्जुनको अपनी सेनाके भीतर विचरते देख दुर्योधनने संशप्तकोंको पुनः उनसे लड़नेकी आज्ञा दी। संशप्तक योद्धा एक हजार रथ, तीन सौ हाथी, चौदह हजार घोड़े तथा दो लाख पदल सेना लेकर अर्जुनपर जा चढ़े। वे अपनी वाणवर्षासे अर्जुनको आच्छादित करते हुए उन्हें घेरकर खड़े हो गये।

अब अर्जुनने पाश हाथमें लिये यमराजकी भाँति अपना भयंकर रूप प्रकट किया। वे संशप्तकोंका संहार करने लगे। उस समय उनकी भाँकी देखने ही योग्य थी। उन्होंने यिजलीके समान चमकीले वाणोंसे वहाँके समूचे आकाशको ढक दिया, तनिक भी खाली नहीं रखला। उनके धनुषकी प्रत्यञ्चकी आवाज सुनकर ऐसा जान पड़ता मानो पृथ्वी, आकाश, दिशाएँ, समुद्र तथा पर्वत—ये सब-के-सब फटे जा रहे हैं। थोड़ी ही देरमें अर्जुनने दस हजार योद्धाओंका सफाया कर डाला। फिर वे बड़ी फुर्तीके साथ उन आततायी शत्रुओंके हथियारसहित हाथ, भुजाएँ, जङ्घा और मस्तक काटने लगे। इस प्रकार अर्जुन संशप्तकोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका नाश कर ही रहे थे कि सुदक्षिणका छोटा भाई वहाँ पहुँचकर उनके ऊपर वाणोंकी बौधार करने लगा। उस समय अर्जुनने दो अर्धचन्द्राकार वाणोंसे उसकी परिधके समान मोटी भुजाएँ काट डालीं तथा क्षुरसे मारकर उसके पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मस्तकको भी धड़से अलग कर दिया। वह लोहलुहान होकर जमीनपर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। लड़नेवाले योद्धाओंकी नाना प्रकारसे दुर्दशा होने लगी। अर्जुनने एक-एक वाणसे काम्बोजों, धवनों तथा शकोंके घोड़ोंका संहार कर डाला, वे काम्बोज आदि स्वर्ध भी खूनसे लयपय हो गये।

उनके श्विरसे सारी रणभूमि लाल हो गयी। रथी, सारथि, घुड़सवार, हाथीसवार और महावत सब मारे गये। इस प्रकार वहाँ भयानक नर-संहार हुआ।

तदनन्तर, अश्वत्थामा अर्जुनका सामना करनेके लिये चढ़ आया। उस समय वह क्रोधमें भरे हुए कालके समान जान पड़ता था। रथपर बैठे हुए श्रीकृष्णपर दृष्टि पड़ते ही उसने भयंकर अस्त्र-शस्त्रोंकी वृष्टि आरम्भ कर दी। अश्वत्थामाके छोड़े हुए वाण चारों ओरसे आकर श्रीकृष्ण और अर्जुनपर पड़ने लगे। वे दोनों रथपर बैठे-ही-बैठे ढक गये। प्रतापी अश्वत्थामाने उन दोनोंको निश्चेष्ट कर दिया, उनसे कुछ भी करते नहीं बनता था। उनकी यह अवस्था देख समस्त चराचर जगतमें हाहाकार मच गया। संग्राममें श्रीकृष्ण और अर्जुनको आच्छादित करते समय अश्वत्थामाने जो पराक्रम दिखाया, वँसा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उस समय द्रोणपुत्रकी ओर देखकर अर्जुनको बड़ा भारी मोह-सा हो गया। उन्हें यह विश्वास-सा होने लगा कि अश्वत्थामाने मेरा पराक्रम हर लिया है।

यह देख श्रीकृष्णने प्रेममिश्रित क्रोधके साथ कहा—‘पार्थ ! तुम्हारे विषयमें तो आज मैं बड़ी अद्भुत बात देख रहा हूँ। आज द्रोणकुमार तुमसे बहुत बढ़-चढ़कर पराक्रम दिखा रहा है। अब तुममें पहले-जैसी वीरता है या नहीं ? तुम्हारी दोनों भुजाओंमें बलका अभाव तो नहीं हो गया है ? हाथमें गाण्डीव है न ? यह सब इसलिये पूछता हूँ कि आज द्रोणकुमार संग्राममें तुमसे बढ़ता दिखायी देता है। ‘मेरे गुरुका पुत्र है’ यह सोचकर उसकी उपेक्षा न करो। यह उपेक्षा करनेका समय नहीं है।’

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने चौदह भल्ल हाथमें लिये और उनसे अश्वत्थामाके धनुष, ध्वजा, छत्र, पताका, रथ, शक्ति और गदाको नष्ट कर डाला। फिर ‘वत्सदन्त’ नामक वाणोंसे उसके गलेकी हँसलीमें इतने जोरसे प्रहार किया कि उसे मूर्च्छा आ गयी। वह ध्वजाका डंडा थामकर बैठ गया। उसे बेहोश देखकर सारथि अर्जुनसे उसकी रक्षा करनेके लिये रणभूमिसे बाहर हटा ले गया। इस प्रकार अर्जुनने संशप्तकोंका, भीमने कौरव-योद्धाओंका तथा कर्णने पाञ्चालोंका एक ही क्षणमें विनाश कर डाला। बड़े-बड़े वीरोंका संहार करनेवाले उस भयंकर संग्राममें असंख्यों घड़ उठ-उठकर दौड़ रहे थे।

अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा, धृष्टद्युम्न और कर्णका युद्ध, अश्वत्थामाके द्वारा धृष्टद्युम्नकी और अर्जुनके द्वारा अश्वत्थामाकी पराजय

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर, दुर्योधनने कर्णके पास जाकर कहा—‘राधानन्दन ! यह युद्ध स्वर्गका खुसा हुआ दरवाजा है, जो हमें स्वतः प्राप्त हो गया है। सोभाग्यशाली क्षत्रियोंको ही ऐसा युद्ध मिला करता है। यदि सुभलोगोंने युद्धमें पाण्डवोंको मारा तो धन-धान्यसे सम्पन्न पृथ्वी प्राप्त करोगे और यदि शत्रुओंके हाथसे-तुम्हीं मारे गये तो वीर पुरुषोंको प्राप्त होने योग्य पुण्य-सौकर पाओगे।’

दुर्योधनकी बात सुनकर श्रेष्ठ क्षत्रियोंने हर्षवर्धन की। फिर सब ओर बाजे बजने लगे। उस समय अश्वत्थामाने वहाँ पहुँचकर आपके योद्धाओंको हर्षित करते हुए कहा—‘आप सब लोगोंने तो देला ही था कि मेरे पिता अस्त्र डालकर योगमें स्थित हो गये थे, तो भी उन्हें धृष्टद्युम्नने मारा। इसके कारण तो मुझे अमर्ष है ही, मित्र दुर्योधनका हित भी करना है। इसलिये शत्रियों ! मैं आपके समक्ष यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि धृष्टद्युम्नको मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूँगा। यदि मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो तो मुझे स्वर्ग न मिले। सड़ाईमें अर्जुन या भीमसेन जो भी मेरा सामना करने आयेंगे, उन सबको कुचल डालूँगा—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।’

अश्वत्थामाके ऐसा कहनेपर कौरवोंकी सेनाने एक साथ होकर पाण्डवोंपर धावा किया। साथ ही पाण्डवोंका भी उसपर आक्रमण हुआ। दोनों दलोंमें घोर संग्राम होने लगा। मनुष्योंका भीषण संहार मचा; प्रसन्नकालका दृश्य उपस्थित हो गया। उस समय पाण्डवोंके पक्षमें युधिष्ठिरकी ओर हमारे दलमें कर्णकी प्रधानता थी। खूब जोरसे मार-काट हुई। खूनकी धारा बह चली। संशयकोंमेंसे अब थोड़े ही बच गये थे। इसलिये धृष्टद्युम्न तथा पाण्डव-महाराजियोंने सब राजाओंको साथ लेकर कर्णपर ही धावा किया। किंतु कर्णने अकेले ही उन सबका बढ़ाव रोक दिया। धृष्टद्युम्नने कर्णको एक बाण मारकर कहा—‘अरे ! खड़ा रह, खड़ा रह, कहाँ भागा जाता है ?’ यह सुनकर कर्ण श्रोधमें भर गया और धृष्टद्युम्नका धनुष काटकर उसने उसको नी बाण मारे। धृष्टद्युम्नका कवच कट गया। इसके बाद उसने भी ब्रूसरा धनुष लिया और कर्णको सत्तर बाणोंसे घायल किया। अब तो कर्णको बड़ा कोप हुआ, उसने धृष्टद्युम्नपर मृत्युवण्डके समान भयंकर बाणका प्रहार किया। उस बाणकी धृष्टद्युम्नकी ओर आते देख सात्यकिने अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए सहसा उसके सात टुकड़े कर डाले।

यह देख कर्णने बाणोंकी वर्षा करके सात्यकिको चारों ओरसे घेर लिया और सात नाराचोंसे उसे बाँध डाला। सात्यकिने भी कर्णका यही हाल किया। फिर उन दोनोंमें विचित्र प्रकारसे घोर युद्ध हुआ, जिसे देखने और सुननेसे भी भय होता था। इसी बीचमें धृष्टद्युम्नपर अश्वत्थामाने चढ़ाई की। उसने आते ही श्रोधमें भरकर कहा—‘ओ ब्रह्महत्यारे ! आज मैं तुम्हे मौतके मुँहमें भेज दूँगा। अगर अर्जुनने तेरी रक्षा नहीं की, यदि तू सड़ाईमें डटा रह गया और सामना छोड़कर भागा नहीं, तो आज तुम्हे तेरे पापका दण्ड अवश्य मिलेगा, तू कुगलते नहीं रह सकेगा।’

उसके ऐसा कहनेपर धृष्टद्युम्न बोला—‘तेरी बातका उत्तर मेरी बह तलवार ही देगी, जो तेरे पिताको संग्राममें मुँहतोड़ जयाव दे चुकी है।’ यो कहकर सेनापति धृष्टद्युम्नने अमर्षमें भरकर अश्वत्थामाको एक तीक्ष्ण बाणसे बाँध डाला। इससे अश्वत्थामाको बड़ा क्रोध हुआ। उसने द्रतने बाणोंकी वर्षा की जिनसे धृष्टद्युम्नके चारों ओरकी दिशाएँ ढक गयीं। इसी प्रकार धृष्टद्युम्नने भी कर्णके देखते-देखते द्रोणकुमारकी



अपने साथकोसे आच्छादित कर दिया तथा उसका

भी काट डाला। अश्वत्थामाने वह धनुष फेंक दिया और दूसरा धनुष-बाण हाथमें लेकर उससे धृष्टद्युम्नके धनुष, शक्ति, गदा, ध्वजा, घोड़े, सारथि तथा रथको पलक मारते-मारते नष्ट कर दिया। तब धृष्टद्युम्नने डाल और तलवार हाथमें ली, किंतु महारथी अश्वत्थामाने भल्लोंसे मारकर उनके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। साथ ही उसने अनेकों बाणोंसे धृष्टद्युम्नको बहुत घायल कर दिया। यह सब करनेपर भी जब वह धृष्टद्युम्नका नाश न कर सका तो धनुष फेंककर धृष्टद्युम्नको पकड़नेके लिये दौड़ा।

इसी बीचमें श्रीकृष्णकी दृष्टि उधर गयी। उन्होंने अर्जुनसे कहा—'पार्थ! वह देखो, अश्वत्थामा धृष्टद्युम्नको मारनेके लिये बड़ा भारी उद्योग कर रहा है। इसमें संदेह नहीं कि वह उसे मार सकता है। धृष्टद्युम्न अब कालके समान अश्वत्थामाका प्राप्त बना ही चाहता है, इसलिये तुम इसे शीघ्र छोड़ो।' ऐसा कहकर महाप्रतापी भगवान् श्रीकृष्णने, जहाँ अश्वत्थामा था, उधर ही अपने घोड़े बढ़ाये। श्रीकृष्ण और अर्जुनको आते देख उसने धृष्टद्युम्नको मारनेका विशेष उद्योग किया। अर्जुनने जब देखा कि अश्वत्थामा हृष्यकेशुमारको घसीट रहा है, तो उसके ऊपर बहुत-से बाण मारे। गाण्डीवेशे छूटे हुए वे बाण, जैसे साँप अपनी बाँवोंमें


घुसते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामाके शरीरमें घँस गये। उनसे पीड़ित होकर द्रोणपुत्रने धृष्टद्युम्नको तो छोड़ दिया और अपने रथमें बैठकर धनुष हाथमें ले अर्जुनको बाँधना आरम्भ कर दिया।

इतनेमें सहदेवने धृष्टद्युम्नको अपने रथपर बिठाकर वहाँसे अन्यत्र हटा दिया। अर्जुनने भी द्रोणकुमारको बाणोंसे बाँधना आरम्भ किया। इससे अश्वत्थामाका क्रोध बहुत बढ़ गया। उसने अर्जुनकी भुजाओं तथा छातीमें भी बाण मारे। तब अर्जुनने अश्वत्थामाके ऊपर द्वितीय कालदण्डके समान एक नाराच चलाया। वह उसके कंधेपर लगा। लगते ही अश्वत्थामा विह्वल होकर रथकी बैठकमें बैठ गया। उस समय उसे बड़ी वेदना हुई। उसकी यह अवस्था देख सारथि बड़ी फुर्तीके साथ उसे रणाङ्गणसे बाहर ले गया।

महाराज! इस प्रकार धृष्टद्युम्नको संकटसे मुक्त और अश्वत्थामाको पीड़ित देख पाञ्चाल वीरोंने बड़े जोरसे गर्जना की। हजारों दिव्य बाजे वज्र उठे। सब लोग सिंहनाद करने लगे। तदनन्तर, अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णसे बोले—'अब संशप्तकोंकी ओर चलिये, उनका संहार करना इस समय मेरे लिये प्रधान काम है।' उनकी बात सुनकर भगवान् हवासे बातें करनेवाले अपने रथके द्वारा संशप्तकोंकी ओर चल दिये।

भगवान् श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनसे कौरवोंके आक्रमण तथा भीमके पराक्रमका वर्णन

सञ्जय कहते हैं—महाराज! चलते समय राहमें श्रीकृष्णने अर्जुनसे युधिष्ठिरको दिखाते हुए कहा—'पाण्डुनन्दन! ये हैं तुम्हारे भाई युधिष्ठिर। देखो, इन्हें मारनेके लिये अत्यन्त बलवान् और महान् धनुर्धर कौरव-योद्धा बड़ी तेजीके साथ इनका पीछा कर रहे हैं। साथ ही उनकी रक्षाके लिये पाञ्चालदेशीय वीर भी उनके पीछे-पीछे जा रहे हैं। यह राजा दुर्योधन भी रथियोंकी सेनासे घिरकर राजा युधिष्ठिरपर धावा कर रहा है। इसका भी उद्देश्य यही है कि युधिष्ठिरको मार डालें। इस कार्यमें इसके भाई भी साथ दे रहे हैं। ये हाथीसवार, घोड़सवार, रथी और पैदल—सभी उन्हें पकड़नेके लिये जा रहे हैं। अब देखो, सात्यकि और भीमने पहुँच कर यद्यपि इन्हें बीचमें ही रोक दिया है, तो भी ये संख्यामें अधिक होनेके कारण राजाकी ओर बढ़े ही चले जाते हैं। शत्रुको संताप देनेवाले राजा युधिष्ठिर भी यद्यपि बड़े बलवान् हैं, युद्धकी कलामें निपुण हैं, उनका हाथ भी फुर्तीसे चलता है, तथापि कर्णने उन्हें रणसे विमुख कर दिया है। धृतराष्ट्रके पुत्र शूरवीर हैं, उनको सहायता मिल जानेपर कर्ण अवश्य ही हमारे महाराजको कट



पहुँचा सरता है। इनके तथा और भी बहुत-से शूरवीरोंके साथ ये युद्ध कर रहे थे। उन सब महारथियोंने मिलकर उन्हें परास्त किया है। राजा युधिष्ठिर उपवास करनेके कारण बहुत दुर्बल हो गये हैं। ये अधिकतर ब्राह्मण (क्षमा) में ही स्थित रहते हैं, क्षात्रबल (निष्ठुरता) में नहीं; जबसे कर्णके साथ इनकी मित्रता हुई है, तबसे ये बड़े संकटमें पड़ गये हैं। कर्ण धृतराष्ट्रके महारथी पुत्रोंसे यह कह रहा है कि 'तुमलोग पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको मार डालो!' पाप्यं! ये सभी महारथी स्यूणाकर्ण, इन्द्रजाल तथा पाशुपत नामक अस्त्र-शस्त्रोंसे राजाको आच्छादित कर रहे हैं। वे अतुर हो गये हैं, इस समय उन्हें विशेष सेवाकी आवश्यकता है। अब शीघ्रता करनेका समय है—यह जानकर पाञ्चाल तथा पाण्डव घोर बड़ी तेजीसे उनके पीछे दौड़ते हैं। उन्हें यह आशा और विश्वास है कि यदि महाराज युधिष्ठिर पातालमें भी डूबते होंगे तो हम उन्हें बलपूर्वक निकाल लायेंगे। वह देखो, अब कर्ण अत्यन्त क्रोधमें भरकर पाञ्चालोंको ओर दौड़ रहा है। उसके रथकी ध्वजा घुट्टघुम्नके रथकी ओर जाती दिखायी दे रही है। पाप्यं! इस समय मैं तुम्हें एक परम प्रिय समाचार सुना रहा हूँ कि राजा युधिष्ठिर जीवित हैं। उधर वे महाबाहु भीमसेन हैं, जो सृञ्जयोंकी बाहिनी तथा सात्यकिके साथ लीटकर अपनी सेनाके मुहानेपर खड़े हैं। पाञ्चाल योद्धा तथा भीमसेन अपने तेज बाणोंसे अब कौरवोंपर प्रहार कर रहे हैं। देखो कौरव-सेना भाग चली।

सैनिकोंके घावोंसे खूनको धारा जारी है। उनकी बड़ी दयनीय दशा दिखायी देती है। अब देखो, भीमसेन शत्रुओंकी सेनाको खदेड़ने लगे। उनकी वजहसे कौरव-बाहिनी बड़े संकटमें पड़ गयी है। ये रथी लोग भीमके भयसे परां उठे हैं। हाथी उनके नारावोंकी मारसे विदीर्ण हो-होकर जमीनपर गिर रहे हैं। बड़े-बड़े गजराज भीमके बाणोंसे घायल होकर अपनी ही सेनाको रौंदते-कुचलते हुए भागे जा रहे हैं। अर्जुन! पहचान लो, संग्रामविजयी धीरधर भीमसेनका ही यह दुःसह सिंहनाद सुनायी देता है! यह लो, उन्होंने दस बाण मारकर निपादराजके पुत्रको भी मौतके घाट उतार दिया। अब कौरवोंकी घोलती बंद हो गयी है, पहले-जैसे उनकी गर्जना नहीं सुनायी देती। भीमसेनने दुर्पोंघनकी तीन अशौहिणी सेनाओंको आगे बढ़ानेसे रोककर मार डाला है। जिनको आँखें कमजोर हैं वे जैसे दीपहरके सूर्यकी ओर नहीं देख सकते, वैसे ही ये कौरवपक्षके राजा लोग भीमसेनकी ओर आँस उठाकर देख नहीं पाते। उनके बाणोंकी मारसे भयभीत हुए शत्रुओंको कहीं भी चैन नहीं मिलता।'

भगवान् श्रीकृष्ण के मुखसे ये बातें सुनकर अर्जुनने भीमसेनके दुष्कर पराक्रमपर दृष्टिपात किया। फिर अपने बचे-खुचे शत्रुओंको तोले बाणोंसे मारना आरम्भ किया। संशप्तक योद्धा यद्यपि बड़े बलवान् थे तो भी ये अर्जुनकी मारसे युद्धमें नहीं ठहर सके। भयभीत होकर सब दिशाओंमें भाग गये।

दोनों पक्षके योद्धाओंका द्वन्द्वयुद्ध तथा भीमसेनका पराक्रम

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! पाण्डवों और पाञ्चालोंकी मार खानेसे जब हमारी सेना डुली होकर भागने लगी, उस समय कौरवोंने क्या किया ?

सञ्जयने कहा—महाराज! उस समय महाबाहु भीमसेनपर कर्णको दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही उसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और वह उनपर चढ़ आया। उसने भीमसेनके डरसे भागती हुई आपकी सेनाको बड़ी कोशिश करके रोका और उसे ध्वस्त्यापूर्वक खड़ी करके पाण्डवोंकी ओर बढ़ा। यह देख पाण्डवोंके महारथी भीमसेन, सात्यकिक, शिलङ्डी, जनमेजय, घुट्टघुम्न तथा प्रमत्रक आदि भी क्रोधमें भरकर आपकी सेनाका संहार करनेके लिये उसपर चारों

ओरसे दूट पड़े। उस युद्धमें शिलङ्डीने कर्णका सामना किया और घुट्टघुम्नने बहुत बड़ी सेनासे घिरे हुए दुःशासनका मुकाबला किया। नकुलने व्यपसेनपर और युधिष्ठिरने चित्रसेनपर घावा किया। सहदेव उलूकसे मिड़ गया। सात्यकिका शकुनिपर और द्रोपदीके पुत्रोंका कौरवोंपर आक्रमण हुआ। अर्जुनका सामना महारथी अश्वत्थामाने किया। कृपाचार्यका युधामन्युसे और कृतवर्माका उत्तमौजासे युद्ध हुआ। भीमसेनने अकेले ही समस्त कौरवों तथा उनकी सेनाओंका वेग रोका।

महाराज! शिलङ्डीने रणभूमिमें निर्मय विचरते हुए कर्णको अपने बाणोंका निशाना बनाया और उसे आगे

बढ़नेसे रोक दिया। बाधा पाकर रोपके मारे कर्णके ओठ फड़कने लगे। उसने शिखण्डीकी दोनों भीहोंके बीच तीन बाण मारे। उनसे अत्यन्त आहत होकर शिखण्डीने भी कर्णको तेज किये हुए नव्वे बाण मारे। तब महारथी कर्णने



तीन बाणोंसे शिखण्डीके सारथि और घोड़ोंको मार डाला। इससे शिखण्डीको बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने रथसे कूदकर कर्णके ऊपर शक्तिका प्रहार किया। कर्णने तीन बाणोंसे उस शक्तिके टुकड़े-टुकड़े कर डाले और नौ तीखे बाण मारकर उसे भी बौध डाला। शिखण्डीके शरीरमें बहुत घाव हो गये थे; इसलिये वह कर्णके धनुषसे छूटे हुए बाणोंका वार बचाता हुआ तुरंत भाग निकला। अब कर्ण पाण्डव-सैनिकोंको अपने बाणोंसे मारकर गिराने लगा।

दूसरी ओर आपके पुत्र दुःशासनने धृष्टद्युम्नको बहुत पीड़ित किया। तब धृष्टद्युम्नने दुःशासनकी छातीमें तीन बाण मारे। फिर दुःशासनने भी एक तीखे भल्लसे धृष्टद्युम्नको बायीं मुजाको बौध डाला, इससे धृष्टद्युम्न क्रोधमें भर गया और एक तीखा क्षुरप्र मारकर उसने दुःशासनका धनुष काट दिया। यह देख पाञ्चाल योद्धा उच्च स्वरसे गर्जना करने लगे। अब आपके पुत्रने दूसरा धनुष हाथमें लिया और हँसते-हँसते बाणोंकी झड़ी लगाकर धृष्टद्युम्नको चारों ओरसे घेर लिया। तदनन्तर, पाञ्चाल-

देशीय सैनिकोंने भी अपने सेनापतिको बचानेके लिये आपके पुत्रपर घेरा डाल दिया। फिर तो आपके योद्धाओंका शत्रुओंके साथ घोर संग्राम होने लगा।

इसी बीचमें अपने पिताके पास खड़े हुए वृषसेनने नकुलको पहले पाँच और फिर आठ बाण मारे तब शूरवीर नकुलने भी हँसते-हँसते एक तीखे नाराचसे वृषसेनकी छाती छेद डाली। इस चोटसे वृषसेन बहुत घायल हो गया। फिर तो वे दोनों वीर हजारों बाणोंकी बीछारसे एक-दूसरेको ढकने लगे। इतनेमें ही कौरव-सेनामें भगदड़ पड़ गयी। कर्ण पीछे लौटकर उसे रोकने लगा। उसके लौट जानेपर नकुलने कौरवोंके ऊपर चढ़ाई की। कर्णपुत्र वृषसेन भी नकुलका सामना करना छोड़ अपने पिताके पहियोंकी ही रक्षामें लग गया।

इसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए उलूकको संग्राममें सहदेवने रोका, उसने उलूकके चारों घोड़ोंको मारकर उसके सारथिको भी यमलोक भेज दिया। उलूक रथसे कूदकर भागा और तुरंत त्रिगताँकी सेनामें जा घुसा।

एक ओर सात्यकि और शकुनिमें लड़ाई हो रही थी। सात्यकिने तेज किये हुए बीस बाणोंसे शकुनिको घायल कर दिया और एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा भी काट डाली। इससे शकुनिको बड़ा कोप हुआ; उसने सात्यकिका कवच काटकर उसकी ध्वजाके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। सात्यकिने शकुनिको पुनः तीन बाणोंसे घायल किया। तीन ही बाण उसके सारथिको भी मारे। इसके बाद अनेकों बाण मारकर उसने शकुनिके घोड़ोंको यमलोक भेज दिया। फिर तो शकुनि सहसा रथसे कूद पड़ा और उलूकके रथपर बैठकर वहाँसे चम्पत हो गया। अब सात्यकि आपको सेनापर बाण बरसाने लगा। उसके बाणोंकी चोटसे आहत हो आपके सैनिक चारों ओर भागने लगे। बहुतेरे अपने प्राण खोकर रणभूमिमें ही गिर गये।

दूसरी ओर, आपके पुत्र दुर्योधनने भीमसेनको रोका। किलु भीमने तुरंत ही उसके घोड़ों और सारथिको मार डाला। फिर रथ और ध्वजाकी भी धज्जियाँ उड़ा दीं। इससे पाण्डव-पक्षके योद्धा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार परास्त होकर दुर्योधन भीमके सामनेसे भाग गया। इधर युधामन्युने कृपाचार्यको घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भी काट दिया। तब शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य कृपने दूसरा धनुष हाथमें ले बाण मारकर युधामन्युके रथकी ध्वजा,

सारथि और छत्रको नीचे गिरा दिया। तब तो महारथी घुमावन्तु स्वयं ही रथ हाँकता हुआ भाग गया।

इसी प्रकार एक ओर उत्तमीजाने बाणोंकी झड़ी लगाकर कृतवर्माको ढक दिया। फिर उन दोनोंमें अत्यन्त भयानक युद्ध छिड़ गया। कृतवर्माने उत्तमीजाकी छातीमें चोट की, वह भूँचुटत होकर रथकी बँटकमें बँठ गया। उसकी यह अवस्था देख सारथि उसे रथभूमिसे दूर हटा ले गया। तदनन्तर, कौरवोंकी सारी सेना भीमसेनपर दूट पड़ी। दुःशासन तथा शकुनिने हाथियोंकी बहुत बड़ी सेनासे

भीमसेनको घेरकर उनपर बाण मारना आरम्भ किया। हाथियोंकी सेना देखते ही भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही। उन्होंने दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते हुए हाथियोंसे ही हाथियोंका संहार आरम्भ किया। अपने बाणोंसे हाथियोंके हजारों जत्थोंका सफाया कर डाला। उस समय बिजलीकी गड़गड़ाहटके समान भीमके धनुषकी टंकार सुनकर हाथी मल-मूत्र त्यागते हुए बड़े वेगसे भाग रहे थे। महाराज ! भीमसेनका वह पराक्रम सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करनेवाले रुद्रके समान जान पड़ता था।



कणसे पराजित और घायल होकर युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें विश्रामके लिये जाना

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! दूसरी ओर युधिष्ठिरको आते देख आपका पुत्र दुर्योधन श्रेष्ठमें भर गया। उसने अपनी आधी सेना साथ ले सहसा निकट जाकर उन्हें सब ओरसे घेर लिया और तिहुत्तर सुप्र मारकर उनको बाँध डाला। कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भी क्रोधमें भरकर आपके पुत्रको वुरंत ही तोस भल्ल मारे। यह देख उन्हें पकड़नेके लिये कौरवपक्षके योद्धा दूट पड़े। उस समय शत्रुओंके छोटे विचार जानकर महारथी नकुल, सहदेव तथा धृष्टद्युम्न एक अक्षीहिणी सेनाके साथ युधिष्ठिरके पास आ घमके। वहाँ पहुँचते ही सहदेवने बड़ी फुलोंके साथ दुर्योधनको बीस बाण मारे। इतनेमें कर्ण युधिष्ठिरकी सेनाका संहार करने लगा। उसके बाणोंसे पीड़ित होकर वह सेना सहसा भाग खड़ी हुई। तब राजा युधिष्ठिरको बड़ा श्रेष्ठ हुआ। उन्होंने तेज किये हुए पचास बाणोंसे कर्णको बाँध डाला। तदनन्तर, उन दोनोंमें मयंक युद्ध छिड़ा। धर्मराज शानवर चड़ाकर तेज किये हुए भाँति-भाँतिके बाणों, भल्लों, शक्ति, श्रुष्टि तथा मुसलोंने आपकी सेनाका संहार करने लगे। उस समय आपके योद्धाओंमें हाहाकार मच गया। धर्मात्मा युधिष्ठिर जहाँ-जहाँ दृष्टि डालते थे, वहाँ-वहाँके सैनिकोंका सफाया हो जाता था। यह देख कर्ण अत्यन्त कुपित होकर युधिष्ठिरपर नाराच, अर्धचन्द्र तथा वसन्तत आदिका प्रहार करने लगा। युधिष्ठिरने भी तेज किये हुए बाणोंसे कर्णको घायल कर डाला। फिर कर्णने हँसते-हँसते तेज किये हुए बाणों तथा तीन भल्लोंसे युधिष्ठिरकी छाती छेद डाली। इससे धर्मराजको बड़ी पीड़ा हुई। वे रचके पिछले भागमें बँठ गये और सारथिको वहाँसे चल देनेकी आज्ञा की। उन्हें

जाते देख दुर्योधनसहित सभी कौरव 'इसे पकड़ो-पकड़ो' कहकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। इतनेहीमें पाञ्चवाल योद्धाओंके साथ सबह सौ केकय बीरोंने आकर कौरवोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया।

उस समय राजा युधिष्ठिर बाणोंके प्रहारेसे बहुत घायल हो गये थे। वे नकुल तथा सहदेवके बीचमें होकर धीरे-धीरे छावनीकी ओर जा रहे थे, उनका होस ठिकाने नहीं था। ऐसी अवस्थामें भी कर्णने दुर्योधनके हितकी इच्छासे युधिष्ठिरका पीछा किया और उन्हें तीन तीखे बाणोंसे बाँध डाला। युधिष्ठिरने भी कर्णकी छातीमें बाण मारकर बदला चुकाया। इसके बाद तीन बाणोंसे उसके सारथिको और चारसे चारों घोड़ोंको बाँध डाला। फिर नकुल और सहदेवने भी बड़े प्रयासके साथ कर्णपर बाणोंकी वर्षा की। इसी प्रकार सूतपुत्र कर्णने भी तीखे धारवाले दो भल्लोंसे नकुल और सहदेवको घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिरके घोड़ोंको मारकर एक भल्लसे उनके मस्तकके दीपको नीचे गिरा दिया। इसी तरह नकुलके भी घोड़ोंको मौतके घाट उतारकर उसके रथकी ईया और धनुषको भी काट डाला। रथ दूट जानेपर वे दोनों पाण्डुकुमार अत्यन्त घायल होकर सहदेवके रथपर जा बँठे।

उन दोनोंको रथहीन देख उनके मामा भद्रराज शल्यको बड़ी दया आयी। उन्होंने सूतपुत्रसे कहा—'कर्ण ! तुम्हें तो आज अर्जुनसे युद्ध करना है, फिर अत्यन्त क्रोधमें भरकर धर्मराजसे किसलिये सड़ रहे हो ? इन्हें मारनेसे तुम्हें क्या फायदा होगा ? इधर देखो, अर्जुन रथियोंकी सेनाका संहार

बढ़नेसे रोक दिया। बाघा पाकर रोषके मारे कर्णके ओठ फड़कने लगे। उसने शिखण्डीकी दोनों बाँहोंके बीच तीन बाण मारे। उनसे अत्यन्त आहत होकर शिखण्डीने भी कर्णको तेज किये हुए नव्वे बाण मारे। तब महारथी कर्णने



तीन बाणोंसे शिखण्डीके सारथि और घोड़ोंको मार डाला। इससे शिखण्डीको बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने रथसे कूदकर कर्णके ऊपर शक्तिका प्रहार किया। कर्णने तीन बाणोंसे उस शक्तिके टुकड़े-टुकड़े कर डाले और नौ तीखे बाण मारकर उसे भी बाँध डाला। शिखण्डीके शरीरमें बहुत घाव हो गये थे; इसलिये वह कर्णके धनुषसे छूटे हुए बाणोंका वार बचाता हुआ तुरंत भाग निकला। अब कर्ण पाण्डव-सैनिकोंको अपने बाणोंसे मारकर गिराने लगा।

दूसरी ओर आपके पुत्र दुःशासनने धृष्टद्युम्नको बहुत पीड़ित किया। तब धृष्टद्युम्नने दुःशासनकी छातीमें तीन बाण मारे। फिर दुःशासनने भी एक तीखे भल्लसे धृष्टद्युम्नकी बायीं भुजाको बाँध डाला, इससे धृष्टद्युम्न क्रोधमें भर गया और एक तीखा क्षुरप्र मारकर उसने दुःशासनका धनुष काट दिया। यह देख पाञ्चाल योद्धा उच्च स्वरसे गर्जना करने लगे। अब आपके पुत्रने दूसरा धनुष हाथमें लिया और हँसते-हँसते बाणोंको फड़ी लगाकर धृष्टद्युम्नको चारों ओरसे घेर लिया। तदनन्तर, पाञ्चाल-

देशीय सैनिकोंने भी अपने सेनापतिको बचानेके लिये आपके पुत्रपर घेरा डाल दिया। फिर तो आपके योद्धाओंका शत्रुओंके साथ घोर संग्राम होने लगा।

इसी बीचमें अपने पिताके पास खड़े हुए वृषसेनने नकुलको पहले पाँच और फिर आठ बाण मारे तब शूरवीर नकुलने भी हँसते-हँसते एक तीखे नाराचसे वृषसेनकी छाती छेद डाली। इस चोटसे वृषसेन बहुत घायल हो गया। फिर तो वे दोनों वीर हजारों बाणोंकी बाँछारसे एक-दूसरेको ढकने लगे। इतनेमें ही कौरव-सेनामें भगदड़ पड़ गयी। कर्ण पीछे लौटकर उसे रोकने लगा। उसके लौट जानेपर नकुलने कौरवोंके ऊपर चढ़ाई की। कर्णपुत्र वृषसेन भी नकुलका सामना करना छोड़ अपने पिताके पहियोंकी ही रक्षामें लग गया।

इसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए उल्लूकको संग्राममें सहदेवने रोका, उसने उल्लूकके चारों घोड़ोंको मारकर उसके सारथिको भी यमलोक भेज दिया। उल्लूक रथसे कूदकर भागा और तुरंत त्रिगताँकी सेनामें जा घुसा।

एक ओर सात्यकि और शकुनिमें लड़ाई हो रही थी। सात्यकिने तेज किये हुए बीस बाणोंसे शकुनिको घायल कर दिया और एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा भी काट डाली। इससे शकुनिको बड़ा कोप हुआ; उसने सात्यकिका कवच काटकर उसकी ध्वजाके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। सात्यकिने शकुनिको पुनः तीन बाणोंसे घायल किया। तीन ही बाण उसके सारथिको भी मारे। इसके बाद अनेकों बाण मारकर उसने शकुनिके घोड़ोंको यमलोक भेज दिया। फिर तो शकुनि सहसा रथसे कूद पड़ा और उल्लूकके रथपर बैठकर वहाँसे चम्पत हो गया। अब सात्यकि आपकी सेनापर बाण बरसाने लगा। उसके बाणोंकी चोटसे आहत ही आपके सैनिक चारों ओर भागने लगे। बहुतेरे अपने प्राण खोकर रणभूमिमें ही गिर गये।

दूसरी ओर, आपके पुत्र दुर्योधनने भीमसेनको रोका। किंतु भीमने तुरंत ही उसके घोड़ों और सारथिको मार डाला। फिर रथ और ध्वजाकी भी ध्वजियाँ उड़ा दीं। इससे पाण्डव-पक्षके योद्धा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार परास्त होकर दुर्योधन भीमके सामनेसे भाग गया। इधर युधामन्युने कृपाचार्यको घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भी काट दिया। तब शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य कृपने दूसरा धनुष हाथमें ले बाण मारकर युधामन्युके रथकी ध्वजा,

सारथि और छत्रको नीचे गिरा दिया । तब तो महारथी युधामन्यु स्वयं ही रथ हाँकता हुआ भाग गया ।

इसी प्रकार एक ओर उत्तमोजाने बाणोंकी ऋद्धी लगाकर कृतवर्माको ढक दिया । फिर उन दोनोंमें अत्यन्त भयानक युद्ध छिड़ गया । कृतवर्माने उत्तमोजाकी छातीमें घोट की, यह मूँच्छत होकर रथकी बँटकमें बँट गया । उसकी यह अवस्था देख सारथि उसे रणभूमिसे दूर हटा ले गया । तदनन्तर, कौरवोंकी सारी सेना भीमसेनपर दूट पड़ी । दुःशासन तथा शकुनिने हाथियोंकी बहुत बड़ी सेनासे

भीमसेनको घेरकर उनपर बाण मारना आरम्भ किया । हाथियोंकी सेना देखते ही भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही । उन्होंने दिव्यास्त्रोका प्रयोग करते हुए हाथियोंसे ही हाथियोंका संहार आरम्भ किया । अपने बाणोंसे हाथियोंके हजारों जत्थोंका सफाया कर डाला । उस समय बिजलीकी गड़गाड़ाहटके समान भीमके धनुषकी टंकार सुनकर हाथी मल-मूत्र त्यागते हुए बड़े वेगसे भाग रहे थे । महाराज ! भीमसेनका वह पराक्रम सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करनेवाले हृदके समान जान पड़ता था ।

कर्णसे पराजित और घायल होकर युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें विश्रामके लिये जाना

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! दूसरी ओर युधिष्ठिर-को आते देख आपका पुत्र दुर्योधन क्रोधमें भर गया । उसने अपनी आधी सेना साथ ले सहसा निकट जाकर उन्हें सब ओरसे घेर लिया और तिहत्तर क्षुरप मारकर उनको बाँध डाला । कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भी क्रोधमें भरकर आपके पुत्रको तुरंत ही तीस भल्ल मारे । यह देख उन्हें पकड़नेके लिये कौरवपक्षके योद्धा दूट पड़े । उस समय शत्रुओंके खोटे विचार जानकर महारथी नकुल, सहदेव तथा धृष्टद्युम्न एक अशौचिणी सेनाके साथ युधिष्ठिरके पास आ घमके । वहाँ पहुँचते ही सहदेवने बड़े कुतूहलके साथ दुर्योधनको बोल बाण मारे । इतनेमें कर्ण युधिष्ठिरकी सेनाका संहार करने लगा । उसके बाणोंसे पीड़ित होकर वह सेना सहसा भाग खड़ी हुई । तब राजा युधिष्ठिरको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने तेज किये हुए पचास बाणोंसे कर्णको बाँध डाला । तदनन्तर, उन दोनोंमें भयंकर युद्ध छिड़ा । धर्मराज शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए भीति-भीतिके बाणों, भल्लों, शक्ति, श्रद्धा तथा मुसलसे आपकी सेनाका संहार करने लगे । उस समय आपके योद्धाओंमें हाहाकार मच गया । धर्मात्मा युधिष्ठिर जहाँ-जहाँ दृष्टि डालते थे, वहाँ-वहाँके सिनिकोंका सफाया हो जाता था । यह देख कर्ण अत्यन्त कुपित होकर युधिष्ठिर-पर नाराच, अर्धचन्द्र तथा वत्सवन्त आदिका प्रहार करने लगा । युधिष्ठिरने भी तेज किये हुए बाणोंसे कर्णको घायल कर डाला । फिर कर्णने हँसते-हँसते तेज किये हुए बाणों तथा तीन भल्लोंसे युधिष्ठिरकी छाती छेद डाली । इससे धर्मराजको बड़ी पीड़ा हुई । वे रथके पिछले भागमें बँट गये और सारथिको वहंसि चल देनेकी आता की । उन्हें

जाने देख दुर्योधनसहित सभी कौरव 'इसे पकड़ो-पकड़ो' कहकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दीड़ पड़े । इतनेहीमें पाञ्चाल योद्धाओंके साथ सत्रह सौ कैकय धीरेनि आकर कौरवोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया ।

उस समय राजा युधिष्ठिर बाणोंके प्रहारसे बहुत घायल हो गये थे । वे नकुल तथा सहदेवके बीचमें होकर धीरे-धीरे छावनीकी ओर जा रहे थे, उनका होसा ठिकाने नहीं था । ऐसी अवस्थामें भी कर्णने दुर्योधनके हितकी इच्छासे युधिष्ठिर-का पीछा किया और उन्हें तीन तीखे बाणोंसे बाँध डाला । युधिष्ठिरने भी कर्णकी छातीमें बाण मारकर बदला चुकाया । इसके बाद तीन बाणोंसे उसके सारथिको और चारों चारों घोड़ोंको बाँध डाला । फिर नकुल और सहदेवने भी बड़े प्रयासके साथ कर्णपर बाणोंकी वर्षा की । इसी प्रकार सतपुत्र कर्णने भी तीखी धारवाले दो भल्लोंसे नकुल और सहदेवको घायल कर दिया । फिर युधिष्ठिरके घोड़ोंको मारकर एक भल्लसे उनके मस्तकके टोपको नीचे गिरा दिया । इसी तरह नकुलके भी घोड़ोंको मीतके घाट उतारकर उसके रथकी ईया और धनुषको भी काट डाला । रथ दूट जानेपर वे दोनों पाण्डुकुमार अत्यन्त घायल होकर सहदेवके रथपर जा बँटे ।

उन दोनोंको रथहीन देख उनके मामा मद्रराज शल्यको बड़ी दया आयी । उन्होंने सतपुत्रसे कहा—'कर्ण ! तुम्हें तो आज अर्जुनसे युद्ध करना है, फिर अत्यन्त क्रोधमें भरकर धर्मराजसे किसलिये लड़ रहे हो ? इन्हें मारनेसे तुम्हें क्या फायदा होगा ? इधर देखो, अर्जुन रथियोंकी सेनाका संहार

फर रहे हैं। अपने बाणोंकी वपसि हमारी सम्पूर्ण सेनाको कालका प्राप्त बना रहे हैं। उधर, भीमसेन दुर्योधनको दबोचे हुए हैं, हमलोंको देखते-देखते वे उसे मार न डालें—इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। इन माद्रीके पुत्रों अथवा राजा युधिष्ठिरको मारनेसे क्या लाभ होगा? दुर्योधनका प्राण संकटमें पड़ा है, उसे चलकर बचाओ।'

कर्णने शल्यको यह बात सुनी और देखा कि दुर्योधन भीमसेनके चंगुलमें फँस चुका है, तो युधिष्ठिर और नकुल-सहदेवको वहाँ ही छोड़कर आपके पुत्रको बचानेके लिये वह दौड़ पड़ा। उसके चले जानेपर युधिष्ठिर सहदेवके तेज चलनेवाले घोड़ोंपर तहाँसे खिसक गये। राजाको अपनी पराजयके कारण बड़ी लज्जा हो रही थी। नकुल और सहदेवके साथ अपने घायल शरीरसे छावनीपर पहुँचकर वे रथसे उतरे और एक सुन्दर पलंगपर लेट गये। उस समय उनके देहसे बाण निकाल डाले गये तो भी हृदयके घावसे उन्हें बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने दोनों भाई माद्रीके पुत्रोंसे कहा—'भीमसेन मेघके समान गरज-गरजकर लड़ रहे हैं, तुम दोनों सहायताके लिये उनकी ही सेनामें जाओ।' उनकी आज्ञा पाकर नकुल दूसरे रथपर सवार हुआ। सहदेवके पास तो रथ था ही। दोनों भाई अपने शीघ्रगामी घोड़े



हाँकर भीमसेनकी सेनामें जा पहुँचे।

अर्जुनद्वारा अश्वत्थामाकी पराजय, कर्णद्वारा भार्गवास्त्रका प्रयोग, श्रीकृष्ण और अर्जुनका युधिष्ठिरसे मिलनेके लिये छावनीपर जाना तथा युधिष्ठिरका उनसे कर्णके मारे जानेका समाचार पूछना

सञ्जय कहते हैं—महाराज! इसी समय अश्वत्थामा रथियोंकी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर, जहाँ अर्जुन खड़े थे, वहाँ ही सहसा आ धमका। उसे आते देख अर्जुनने एक-घारगी उसका बढ़ाव रोक दिया। अश्वत्थामा भल्ला उठा, वह बाणोंकी मारसे श्रीकृष्ण और अर्जुनको आच्छादित करने लगा। यह देख अर्जुनने हँसते-हँसते दिव्यास्त्रका प्रयोग किया, किंतु अश्वत्थामाने उसका निवारण कर दिया। उस समय अर्जुनने अश्वत्थामाका घघ करनेके लिये जिस-जिस अस्त्रका प्रहार किया, उन सबको द्रोणकुमारने काट डाला। उसने अपने बाणोंसे दिशाओं तथा उपदिशाओंको ढककर श्रीकृष्णकी दाहिनी बांहमें तीन बाण मारे। तब अर्जुनने उसके घोड़ोंको घायल करके संग्राममें सूतकी नदी बहा दी। उन्होंने अश्वत्थामाका धनुष काट डाला। यह देख उसने

अर्जुनपर वज्रके समान भयंकर परिघका प्रहार किया। किंतु अर्जुनने उसे हँसते-हँसते काट डाला। अब अश्वत्थामाका क्रोध और बढ़ गया। उसने ऐन्द्रास्त्रका प्रयोग किया, परंतु अर्जुनने महेन्द्रास्त्रसे उसे शान्त कर दिया। साथ ही अश्वत्थामाको भी अपने बाणोंसे ढक दिया। द्रोणकुमारने अपने साथियोंसे उन बाणोंको काट गिराया और सौ बाणोंसे श्रीकृष्णको तथा तीन सौसे अर्जुनको बाँध डाला। तब अर्जुनने भी अश्वत्थामाके मर्मत्यानोंमें सौ बाण मारे और उसके सारथिको एक भल्लसे मारकर रथसे नीचे गिरा दिया। उस समय अश्वत्थामाने स्वयं ही घोड़ोंकी बागडोर संभाली और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको बाणोंसे ढकना आरम्भ किया। उसके इस पराक्रमकी सनी घोड़ा प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीचमें अर्जुनने हँसते-हँसते उसके घोड़ोंकी बागडोरको

धुरप्रोसे तुरंत काट डाला । अब वे घोड़े बाणोंकी मारसे अत्यन्त पीड़ित होकर भाग चले । उस समय पाण्डव विजय पाकर चारों ओर तीले बाणोंकी वर्षा करते हुए आपकी सेनाको खदेड़ने लगे । उन्होंने कौरव-सैनिकोंको इतनी पीड़ा पहुँचायी कि वे आपके पुत्रोंके रोकनेपर भी न रुक सके ।

तदनन्तर, दुर्योधनने बड़े स्नेहके साथ कर्णसे कहा—
'महाबाहो ! देखो, पाण्डवोंने हमारी इस विशाल सेनाको बड़ा कट्ट पहुँचाया है, तुम्हारे रहते हुए यह भयके कारण भागी जा रहा है । यह जानकर जो उचित समझो, करो । पाण्डवोंके खदेड़े हुए हमारे हजारों योद्धा अब तुम्हें ही सहायताके लिये पुकार रहे हैं ।' दुर्योधनकी यह बात सुनकर कर्णने हँसते-हँसते अपने धनुषपर भागवत्सत्रका संघान किया । फिर तो उससे लावो, करोड़ों और अरबों बाण प्रकट हुए, जो अग्निके समान प्रज्वलित हो रहे थे । उन भयंकर बाणोंसे समस्त पाण्डव-सेना आच्छादित हो गयी । उस समय कुछ भी भ्रम नहीं पड़ता था । उस युद्धमें भागवत्सत्रकी मारसे हजारों हाथी, घोड़े, रथी और पंढल प्राणहीन होकर गिरने लगे । पृथ्वी कांप उठी । पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेना व्याकुल हो गयी । कर्णद्वारा मारे जाते हुए पाण्डवों और चंडिदेशीय योद्धा भयके मारे भागने और चिल्लाने लगे । साथ ही भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी पुकार करने लगे ।

कर्णके बाणसे मारे जाते हुए सृञ्जयोंका आर्तनाद सुनकर कुन्तीनन्दन अर्जुनने भगवान् घायुदेवसे कहा—
'महाबाहो श्रीकृष्ण ! आप इस भागवत्सत्रके पराक्रमको तो देखिये । युद्धमें किसी तरह भी इसका नाश नहीं किया जा सकता । उधर कर्ण अपने घोड़ोंको घटाता हुआ बारबार भेरी और देख रहा है; इस समय उसके सामनेसे भाग जाना भी मैं ठीक नहीं समझता ।' श्रीकृष्णने कहा—'पार्थ ! कर्णने राजा युधिष्ठिरको बहुत घायल कर दिया है । इस समय उनसे मिलकर और धीरज देकर फिर कर्णका वध करना ।' यह कहकर जनार्दन युधिष्ठिरसे मिलनेके लिये आगे बढ़े । उनका उद्देश्य यह था कि जबतक अर्जुन धर्मराजसे मिलेगा, तबतक कर्ण युद्ध करते-करते खूब थक जायगा । भगवान्की आज्ञाके अनुसार अर्जुन अपने घायल हुए भाईको देखनेके लिये रथपर बैठे-बंटे चल दिये । चलते-चलते उन्होंने अपनी सेनामें सब ओर दृष्टि डाली; परन्तु कहीं भी अपने बड़े भाईको नहीं देखा । तब वे बड़ी तेजीके साथ भीमसेनके पास पहुँचकर उनसे बोले—'राजा युधिष्ठिर मर चुके हैं ?'



भीमने कहा—धर्मराज युधिष्ठिर यहाँसे छावनीपर चले गये । कर्णके बाणोंसे घायल होनेके कारण उनके शरीरमें बड़ी पीड़ा हो रही थी । सम्भव है, किसी तरह जीवित हो ।

अर्जुन बोले—यदि ऐसी बात है तो आप शीघ्र ही उनका समाचार लेने जाइये । कर्णके बाणोंसे अत्यन्त घायल हो जानेके कारण अवश्य ही वे छावनीकी ओर चले गये हैं । उनकी क्या हालत है ? यह जाननेके लिये आप शीघ्र चले जाइये । मैं यहाँ खड़ा हो शत्रुओंको रोके रहूँगा ।

भीमने कहा—अर्जुन ! यदि मैं चला जाऊँगा तो शत्रुपक्षके वीर यहाँ कहेंगे कि 'भीमसेन डर गये' । इसलिये तुम्हें जाकर महाराजको खबर लो ।

अर्जुन बोले—मेरे शत्रु सशक्त सामने खड़े हैं, आज इन्हें मारे बिना मैं भी यहाँसे नहीं जा सकता ।

भीमने कहा—धनञ्जय ! मैं अपने पराक्रमसे सशक्तकोका सामना करूँगा । तुम निश्चिन्त होकर जाओ ।

भीमसेनकी बात सुनकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा—
'हृषीकेश ! अब मैं राजा युधिष्ठिरका दर्शन करना चाहता हूँ, आप शीघ्र ही घोड़े हाँकिये ।' तब भगवान् गडगुके समान

तेज चलनेवाले घोड़ोंको हाँककर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिरके



पास पहुँच गये । फिर दोनोंने रथसे उतरकर धर्मराजके चरणोंमें प्रणाम किया और उन्हें सकुशल देख वे बड़े प्रसन्न हुए । तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण और अर्जुनका अभिनन्दन किया । उस समय धर्मराजने यह समझ लिया कि कर्ण मारा गया, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्षगद्गद वाणीसे बोले—देवकीनन्दन ! तुम्हारा स्वागत है ! धनञ्जय ! तुम्हारा भी स्वागत है ! इस समय तुम दोनोंको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; क्योंकि तुम लोगोंने स्वयं सकुशल रहकर महारथी कर्णको मार डाला है । वह सब प्रकारकी शस्त्रविद्यामें निपुण तथा कौरवोंका अनुभा था । परशुरामजीने अस्त्रविद्या सिखाकर उसे महान् शक्तिशाली बना दिया था । युद्धमें उसपर विजय पाना कठिन था । वह विश्वविख्यात महारथी और संसारका सर्वश्रेष्ठ चौर था । दुर्योधनका हित-साधन करता और हमतलोंको दुःख देनेके लिये ही तैयार रहता था । हमारे मित्रोंके लिये तो वह कालके समान था । ऐसे महाबली कर्णको तुम दोनोंने युद्धमें मार डाला—यह बड़े आनन्दकी

वात हुई । नैया श्रीकृष्ण और अर्जुन ! आज कर्णने मेरे साथ भयंकर युद्ध किया था । उसने मेरे दोनों चक्ररक्षकों तथा सारथिको मार डाला, घोड़ोंको यमलोक पठाया और मेरे पक्षके बहुतसे योद्धाओंको जीतकर मुझे भी परास्त कर दिया । इतना ही नहीं, उसने मेरा अपमान करके मुझे बहुत-से कटुवचन भी सुनाये । धनञ्जय ! अधिक क्या कहूँ, इस समय जो मैं जीवित हूँ—यह भीमसेनका प्रभाव है । मुझसे तो वह अपमान सहा नहीं जाता । कर्णने मुझे इतना घायल और अपमानित कर दिया तो अब मेरे जीनेसे क्या लाभ ? अब मैं राज्य लेकर भी क्या करूँगा । पहले कभी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यसे भी मुझे जो अपमान नहीं मिला वह आज सूतपुत्रसे प्राप्त हुआ है । इसलिये अर्जुन ! मैं तुमसे पूछता हूँ कि किस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्णका वध किया है ? यह सब समाचार मुझे सुनाओ । वीरवर !



कर्णके वाणीसे जब मैं बहुत घायल हो गया तो उसका वध करनेके लिये मैंने तुम्हारा ही स्मरण किया था, इस समय कर्णका वध करके तुमने मेरे उस स्मरणको सफल बना दिया न ? बताओ तो सूतपुत्रको तुमने किस तरह मारा ?'

अर्जुनको धातसे कर्णके जीवित रहनेका पता पाकर युधिष्ठिरका उन्हें धिक्कारना तथा युधिष्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए अर्जुनको भगवान्द्वारा धर्मका तत्त्व समझाया जाना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर-
को यह बात सुनकर अतिरथी बौर अर्जुन इस प्रकार बोले—
'राजन् ! आज अब मैं संशप्तकोंके साथ युद्ध कर रहा था,
उस समय अश्वत्थामा बाणोंकी वर्षा करता हुआ सहसा मेरे
सामने आ धमका । मेरा रथ देखते ही उसकी सारी सेना
मेरे साथ युद्ध करनेके लिये खड़ी हो गयी । तब मैं उस
सेनाके पाँच सौ बीरोंको मारकर अश्वत्थामापर जा चढ़ा ।



अश्वत्थामा अपने सीले बाणोंसे मुझे और भगवान् धीकृष्णको
पीड़ा देने लगा । मेरे साथ लड़ते समय उसके पीछे आठ सौ
आठ बेल बाणोंका धोन्ना ढो रहे थे, उसने वे सभी बाण
मुझपर चलाये; किन्तु मैंने अपने साथकोंसे उन सबको नष्ट
कर डाला । तत्परचात् उसके ऊपर मैंने बञ्चके समान तीस
बाण मारे । उनसे टिड जानेके कारण उसका हृष शिकारी
जानवरके समान दिखायी देने लगा । फिर तो अपने समस्त
शरीरसे खूनकी धारा बहाता हुआ वह सूतपुत्रके रथियोंके
दलमें घुस गया । उस समय उसको दूसरे प्रधान-प्रधान
योद्धा भी खूनसे लथपथ ही दिखायी पड़े । तदनन्तर, कौरव-
सेनाको पराजित तथा सैनिकोंके भयभीत देख कर्ण पचास

प्रधान-प्रधान रथियोंको साथ लेकर बड़ी तेजोके साथ मेरी
ओर चला । मैंने उसके सैनिकोंका तो संहार कर डाला;
मगर कर्णको वहाँ ही छोड़कर आपका दर्शन करनेके लिये
जल्दी यहाँ चला आया । मैंने सुना कि कर्णने युद्धमें आपको
बहुत घायल कर दिया है । कर्ण बड़ा क्रूर है, उसके सामने-
से आपका यहाँ चला आना अनुचित नहीं है । मैं समझता
हूँ, वह समय युद्धसे हट आनेका ही था । युद्धमें अपने
सामने ही मैंने कर्णके अद्भुत अस्त्रको देखा है । पाशुचालों-
में कोई भी ऐसा वीर नहीं है, जो आज कर्णका वेग सह
सके । महाराज ! सात्यकि और धृष्टद्युम्न मेरे पहियोंकी
रक्षा करें । राजकुमार युधामन्यु तथा उत्तमौजा—ये मेरे
पुत्रभागको रक्षामें रहें । फिर मैं इस संग्राममें महारथी
कर्णके साथ युद्ध कहेगा । आपको भी इच्छा हो तो आइये
और देखिये, हम दोनों किस प्रकार एक-दूसरेको जीतनेका
प्रयास करते हैं । यदि मैं आज बलपूर्वक कर्णको उसके बन्धु-
बान्धवोंसहित न मार डालूँ तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन
न करनेवालोंको जो कष्टप्रद गति मिलती है, वही मुझे भी
मिले । अब मैं आपसे युद्धमें जानेके लिये अना चाहता हूँ ।
आशीर्वाद दीजिये, जिससे रणमें मेरी विजय हो । राजन् !
मैं सूतपुत्र कर्ण, उसकी सेना तथा सम्पूर्ण शत्रुओंका संहार
कहेगा ।

युधिष्ठिर कर्णके वाणोंको घोटते बहुत कष्ट पा रहे थे,
अर्जुनके मुखसे जब उन्होंने कर्णके जीवित रहनेका समाचार
सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ । वे धनञ्जयसे इस प्रकार
बोले—'तात ! तुम्हारी सेना शत्रुओंसे तिरस्कृत होकर रणसे
भाग गयी है और तुम जब कर्णको नहीं मार सके तो भयभीत
होकर भीमको अकेले ही छोड़ यहाँ भाग आये, यह तुमने
खूब स्नेह निभाया ! बौरमाता कुन्तीके गर्भसे जन्म लेकर
यह अच्छा काम नहीं किया । हुँतयनमें तुमने यह सच्ची
प्रतिज्ञा की थी कि 'मैं अकेले ही कर्णको मार डालूँगा', फिर
उसे जीते-जी ही छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आये ? अर्जुन !
जब तुम जन्म लेकर सात दिनोंके ही हुए थे, उस समय
आकाशबाणोंने कुन्तीसे कहा था—'यह बालक इन्द्रके
समान पराक्रमी होगा । समस्त शत्रुओंपर विजय पायेगा ।
यह छाण्डववनमें सम्पूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियोंको
जीत लेगा । राजाओंके बीच यह मद्र, बतित्त, तथा
कौरव वीरोंका संहार करेगा । संसारमें इतने



कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। कोई भी प्राणी कभी युद्धमें इसे परास्त नहीं कर सकेगा। यह सम्पूर्ण विद्याओंका ज्ञाता तथा जितेन्द्रिय होगा। इच्छा करते ही यह समस्त प्राणियोंको अपने अधीन कर लेगा। चन्द्रमाके समान इसकी कान्ति होगी और वायुके समान वेग। यह स्थिरतामें मेह और क्षमामें पृथ्वीके समान होगा। सूर्यके समान तेजस्वी, कुबेरके समान धनी, इन्द्रके समान पराक्रमी और भगवान् विष्णुके समान बलवान् होगा। कुन्ती ! जैसे अदितिके गर्भसे शत्रुहन्ता विष्णुने जन्म लिया था, उसी प्रकार तुम्हारा यह महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न हुआ है। अपने पक्षकी विजय तथा शत्रुपक्षका संहार करनेमें इसकी ख्याति होगी। इससे ही वंशपरम्पराका विस्तार होगा।' इस प्रकार शतशृङ्गपर्वतके ऊपर यह आकाशवाणी हुई, जिसे अनेकों तपस्विनीने सुना। किंतु यह सत्य नहीं हुई। निरघय ही अब देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। सदा ही तुम्हारी प्रशंसा करनेवाले बड़े-बड़े ऋषियोंके मुखसे भी मैंने ऐसी बातें सुनी हैं, इसीलिये मुझे दुर्योधनकी उन्नतिके विषयमें कभी भी विश्वास नहीं हुआ तथा आजतक मुझे इस बातका भी पता नहीं था कि तुम कर्णके भयसे डरते हो। ऐसी परिस्थितिमें अब मैं क्या कर सकता हूँ ? आज कौरवों, अपने मित्रों तथा अन्य सम्पूर्ण योद्धाओंके सामने मुझे सूतपुत्रके वशमें होना पड़ा, इसलिये मेरे जीवनको

धिक्कार है। पार्थ ! यदि तुम्हारा पुत्र महारथी अभिमन्यु आज जीवित होता तो वह शत्रु-पक्षके सम्पूर्ण महारथियोंका नाश कर डालता। उसके रहते युद्धमें मुझे ऐसा अपमान कभी नहीं उठाना पड़ता। यदि घटोत्कच जीवित होता तो भी मुझे युद्धसे विमुक्त नहीं होना पड़ता। किंतु मैं अपने अभाग्यके लिये क्या कहूँ, जान पड़ता है, मेरे पूर्वजन्मके पाप बड़े ही प्रबल हैं, तभी तो दुरात्मा कर्णने तुम्हें तिनकेके समान भी न गिनकर मेरे साथ वह व्यवहार किया, जो किसी बन्धुहीन एवं असमर्थ मनुष्यके साथ किया जाता है। जो पुरुष आपत्तिमें पड़े हुएको उससे छुड़ाता है, वही सच्चा बन्धु और सुहृद् है—ऐसा प्राचीन मनुष्योंका कथन है तथा सत्पुरुषोंने भी इस धर्मका सदा ही पालन किया है। परंतु तुमने नहीं किया। तुम्हारे पास विश्वकर्माका बनाया हुआ रथ है, जिसके धुरेसे कभी आवाज नहीं होती तथा जिसकी ध्वजापर वानर विराजमान है। यही नहीं, तुम्हारे हाथमें गाण्डीव-जैसा धनुष है तथा भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं। इन सबके होते हुए भी तुम कर्णसे डरकर भाग कैसे आये ? यदि युद्धमें आज कर्णका मुकाबला करनेकी शक्ति नहीं रखते तो जो राजा तुमसे अस्त्र-बलमें बड़ा हो उसे ही अपना गाण्डीव धनुष दे दो। धिक्कार है तुम्हारे इस गाण्डीवको ! धिक्कार है तुम्हारी भुजाओंके पराक्रमको तथा धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य वाणोंको !! अग्निके दिये हुए इस रथ और ध्वजाको भी धिक्कार है !'

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर अर्जुनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धर्मराजको मार डालनेकी इच्छासे हाथमें तलवार उठा ली। भगवान् श्रीकृष्ण तो सबके हृदयकी बात जाननेवाले ही ठहरे, उन्होंने अर्जुनका कोप देखते ही उनकी चेष्टा ताड़ ली और कहा—'अर्जुन ! यह क्या ? तुमने तलवार क्यों उठायी ? यहाँ किसीसे युद्ध करना हो—ऐसा तो नहीं दिखायी देता। मैं किसी ऐसे मनुष्यको भी यहाँ नहीं देखता, जो तुम्हारा वध हो। फिर प्रहार क्यों करना चाहते हो ? तुमपर सनक तो नहीं सवार हो गयी ? मैं पूछता हूँ, बताओ, इस समय क्या करनेका विचार है ?'

श्रीकृष्णके पूछनेपर क्रोधमें भरे हुए अर्जुनने युधिष्ठिरकी ओर देखते हुए कहा—'गोविन्द ! मैंने गुप्तरूपसे यह प्रतिज्ञा की है कि 'जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना गाण्डीव दूसरेको दे डालो, उसका मैं तिर काट लूँगा।' राजाने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है, अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज इनका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। इसीलिये मैंने तलवार उठा ली है।'



इस अवसरपर आप क्या करना उचित समझते हैं? आप ही इस जगतके भूत और भविष्यको जानते हैं; आप जैसी आज्ञा दें, वैसा ही करेगा।'

यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा—'धिक्कार है! धिक्कार है!!' फिर वे अर्जुनसे बोले—'पार्थ! आज मूढे मालूम हुआ कि तुमने कभी युद्ध पुरुषोंकी सेवा नहीं की है, तभी तो तुम्हें वैसीके क्रोध आ गया। धनञ्जय! जो धर्मके विभागको जानता है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय यहाँ तुमने जैसा बर्ताव किया है, उससे तुम्हारी धर्मभीरुता तथा अज्ञताका पता चलता है। जो नहीं करने योग्य काम करता है तथा करने योग्य नहीं करता, वह मनुष्य अधम है। जो स्वयं धर्मका आचरण करके शिष्यों-द्वारा उपासना किये जानेपर उन्हें धर्मका उपदेश देते हैं; धर्मके संक्षेप और विस्तारको जाननेवाले उन गुरुजनोंका हम विषयमें क्या निर्णय है? इसे तुम नहीं जानते। उस निर्णयको नहीं जाननेवाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्यके निश्चयमें तुम्हारी ही तरह अममथ एवं मोहित हो जाता है। क्या करना चाहिये और क्या नहीं? इसे जान लेना सहज नहीं है। इसका ज्ञान होता है शास्त्रमें और शास्त्रका तुम्हें पता ही नहीं है। अज्ञानवश अपनेको धर्मवेत्ता मानकर जो तुम धर्मकी रक्षा करने चले हो, उसमें जीवहिंसाका पाप ही धर्मका उद्देश्य है। धर्मिकी धमके नहीं आती।

तात! मेरे विचारसे प्राणियोंकी हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसीकी प्राणरक्षाके लिये मूढ़ बोलना पड़े तो बोल दे, परंतु उसकी हिंसा न होने दे। भला, तुम्हारे-जैसा श्रेष्ठ पुण्य अन्य साधारण मनुष्योंके समान अपने धर्मका भाई एवं चक्रवर्ती राजाको मारनेके लिये कैसे तैयार होगा? भारत! जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, अपने विमुक्त होकर भागा जा रहा हो, शरणमें आता हो, हाथ जोड़कर पड़ा हो अथवा असायधान हो, ऐसे मनुष्यका बध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते। तुम्हारे बड़े भाईमें प्रायः उपर्युक्त सभी बातें हैं। तुमने नासमझ बालककी तरह पहले प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिये मूलंतावना अधर्म-युक्त कार्य करनेको तैयार हो गये हो। पार्थ! यताओ तो भला, धर्मके दुर्बोध एवं सूक्ष्म स्वरूपका अच्छी तरह विचार किये ही बिना अपने श्रेष्ठ भ्राताका बध करनेको कैसे दौड़ पड़े? पाण्डुनन्दन! अब मैं तुम्हें धर्मका रहस्य बता रहा हूँ। पितामह भीष्म, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, विदुरजी अथवा यशस्विनी कुन्ती देवी तुम्हें धर्मके जिस तरहका उपदेश कर सकती हैं, उसको मैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ, सुनो। सत्य बोलना बहुत अच्छा काम है, सत्यसे बढकर कुछ भी नहीं है, फिर भी सत्यवादीको ही कभी-कभी सत्यके स्वरूपका ठीक-ठीक ज्ञान होना कठिन हो जाता है। देवों सत्यका अनुष्ठान कैसे होता है? जहाँ सत्यका परिणाम असत् और असत्यका परिणाम सत् होता हो, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है। विवाह-कालमें, स्त्री-प्रसंगके समय, किसीके प्राणोका संकट आनेपर, संघर्षका अपहरण होते समय तथा द्राह्मणको भलाईके लिये आवश्यकता हो तो असत्य बोल दे। इन पंथ अवसरोंपर मूढ़ बोलनेपर पाप नहीं होता। जब किसीका सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचानेके लिये मूढ़ बोलना बर्तव्य है। वहाँ असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य होजाता है। जो वहाँ भी सत्य ही कह देता है, ऐसे मनुष्यको लोग मूलं समझते हैं। पहले सत्य और असत्यका अच्छी तरह निर्णय करके जो परिणाममें सत्य हो उसका पालन करे। केवल अनुष्ठानको दृष्टिसे असत्यरूप सत्यका भाषण नहीं करना चाहिये। जो ऐसा करता है, वही धर्मवेत्ता है। जिसकी बुद्धि निष्काम है, वह मनुष्य अंधे पशुको मारनेवाले बलाक नामक व्याधकी भांति अत्यन्त कठोर कर्म करके भी धर्म महान् पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है? इसी तरह जो धर्म-पालनकी दृष्टि से तो सत्य और सत्य ही असत्य होजाता है, वह नदियोंके संगमपर बसे हुए कौशिक मुनिको भांति यदि अज्ञानपूर्वक धर्म करके श्री कृष्ण पराकाशता ही ज्ञान तो क्या आश्चर्य है?'

अर्जुनने कहा—भगवन् ! बलाक और कौशिक मुनिकी क्या मुझे सुनाइये, जिससे मैं इस विययको अच्छी तरह समझ लूं ।

श्रीकृष्णने कहा—भारत ! एक व्याध था, जिसका नाम था बलाक । वह अपनी स्त्री और पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये मृगोंको मारा करता था, कामना या आसक्तिके वशीभूत होकर नहीं । बड़े माता-पिता तथा अन्य आश्रित-जनोंका पालन-पोषण किया करता था । सदा अपने धर्ममें लगा रहता, सत्य बोलता और किसीकी निन्दा नहीं करता था । एक दिन वह मृगोंको मारकर लानेके लिये वनमें गया; किंतु कोशिश करनेपर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला । इतनेमें उसकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारी जानवरपर पड़ी, जो अंधा था, वह नाकसे सूंघकर ही आँखका काम निकाला करता था । यद्यपि वैसे जानवरको व्याधने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी उसने उसे मार डाला । अंधेके भरते ही आकाशसे फूलोंकी वृष्टि होने लगी । व्याधको ले जानेके लिये स्वर्गसे एक सुन्दर विमान उतर आया, जिसपर अप्सराओंके गाने-बजानेका मनोरम शब्द हो रहा था । बात यह थी कि उस जन्तुने पूर्व जन्ममें तप करके सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार कर डालनेके लिये वर प्राप्त किया था, इसीलिये ब्रह्माजीने उसे अंधा बना दिया था । वह प्राणी समस्त जीवोंका अन्त कर देनेका निश्चय किये हुए था, अतः उसे मारकर व्याध स्वर्गमें गया । इस प्रकार धर्मके स्वरूपको समझना बड़ा कठिन है ।

इसी तरह कौशिक नामका एक तपस्वी ब्राह्मण था, जो बहुत पढ़ा-लिखा नहीं था । वह गाँवसे दूर नदियोंके संगमके बीच रहा करता था । उसने यह व्रत ले लिया था कि 'मैं सदा सत्य बोलूंगा ।' इससे वह 'सत्यवादी' नामसे विख्यात हो गया । एक दिनकी बात है, कुछ लोग लुटेरोंके भयसे छिपने के लिये उसके आश्रमके पासके वनमें घुस गये । लुटेरे भी यत्नपूर्वक उनका पता लगा रहे थे । वे सत्यवादी कौशिकके पास आकर बोले—'भगवन् ! बहुत-से लोग, जो इधर ही आये हैं, किस रास्तेसे गये हैं ? हम सच्ची बात पूछते हैं, यदि आप जानते हों तो बता दीजिये ।' उनके पूछनेपर कौशिकने सच्ची बात कह दी—'इस वनमें, जहाँ घने वृक्ष, लता और झाड़ियाँ हैं, उधर ही वे गये हैं ।' पता लग जानेपर, उन निर्दयी डाकुओंने सब लोगोंको पकड़कर मार डाला । ऐसी किंवदन्ती है ।

इस प्रकार वाणीका दुरूपयोग करनेके कारण ब्राह्मणको

महान् पाप लगा और उस पापकी वजहसे कौशिकको दुःखदायी नरककी हवा खानी पड़ी; क्योंकि वह धर्मके सूक्ष्म स्वरूपको विलकुल नहीं जानता था । इसी तरह जिसने शास्त्र बहुत कम पढ़ा है, जो गंवार है, धर्मके विभाग-को ठीक-ठीक नहीं जानता, वह मनुष्य यदि बृद्ध पुरुषोंसे अपने संदेह नहीं पूछता तो उसे महान् नरकका-सा कष्ट उठाना पड़ता है । अब तुम्हारे लिये संक्षेपसे धर्मकी पहचान बतायी जाती है । कितने ही मनुष्य 'परम ज्ञान' रूप धर्मको तर्कके द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं; किंतु बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वेदोंसे ही धर्मका ज्ञान होता है । मैंने जो यहाँ धर्मके स्वरूपकी व्याख्या की है, वह समस्त प्राणियोंके लाभको ही दृष्टिमें रखकर की है । धर्मके सम्बन्धमें ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसायुक्त है, वही धर्म है । हिंसकोंको हिंसासे रोकनेके लिये धर्मकी यह व्याख्या की गयी है । धर्म ही प्रजाको धारण करता है और धारण करनेके कारण ही उसे धर्म कहते हैं, इसलिये जो प्राणरक्षाले युक्त हो—जिसमें किसी भी जीवकी हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है—यही धर्मवेत्ताओंका सिद्धान्त है । जो लोग स्वयं अन्याय-पूर्वक धन छीन लेनेकी इच्छा रखते हुए दूसरोंसे सत्य-भाषण कराना चाहते हैं, वहाँ यदि भौन रहनेसे छुटकारा मिल जाय तो बंसा ही करे, किसी तरह बोले ही नहीं । किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाय और न बोलनेसे लुटेरोंको संदेह होने लगे तो वहाँ असत्य बोलना ही ठीक है । इसीको विना विचारे सत्य समझो । जो मनुष्य किसी कामके लिये प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारान्तरसे पालन करता है, उसे उसका फल नहीं मिलता—ऐसा मनीषी विद्वानोंका कथन है । प्राणसंकटमें, विवाहमें, समस्त कुटुम्बियोंके प्राणान्तका समय उपस्थित होनेपर या हँसी-परिहासमें यदि असत्य बोला गया हो तो वह असत्य नहीं माना जाता । धर्मका तत्त्व जाननेवाले विद्वान् उक्त अवसरोंपर मिथ्या बोलनेमें पाप नहीं मानते । जहाँ लुटेरोंके चंगुलमें फँस जानेपर झूठी शपथ खानेसे छुटकारा मिलता हो, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है, इसीको विना विचारे सत्य समझो । जहाँ-तक वश चले उन लुटेरोंको धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापियोंको दिया हुआ धन दाताको दुःख देता है । अतः धर्मके लिये झूठ बोलनेपर भी मनुष्यको झूठका दोष नहीं लगता । अर्जुन ! मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसीलिये अपनी बुद्धि तथा धर्मके अनुसार मैंने संक्षेपसे तुम्हें यह धर्मका लक्षण बताया है । इसे तुमने सुना, अब बताओ, क्या इस समय भी युधिष्ठिरको वध ही समझते हो ?

भगवान् कृष्णका अर्जुनको प्रतिज्ञामङ्ग, भ्रातृवध तथा आत्मघातसे बचाना और युधिष्ठिरको वन जानेसे रोकना

अर्जुन बोले—श्रीकृष्ण ! कोई बहुत बड़ा विद्वान् और बुद्धिमान् मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके अनुसार आचरण करनेसे हमलोगोंका फलप्राप्ति होना सम्भव है, वंसी ही बात आपने बतायी है। आप हमलोगोंके माता-पिताके तुल्य हैं, आप ही परम गति हैं, इसलिये आपने बहुत उत्तम बात बतायी है। तीनों लोकोंमें कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं है, जो आपको विदित न हो। अतः आप ही परम धर्मको पूर्ण रूपसे तथा ठीक-ठीक जानते हैं। अब मैं राजा युधिष्ठिरको मारने योग्य नहीं समझता। मेरी इस प्रतिज्ञाके सम्बन्धमें आप ही अनुग्रह करके कुछ ऐसी बात बताइये, जिससे इसका पालन भी हो जाय और राजाका वध भी न होने पाये। भगवन् ! आप तो जानते ही हैं कि मेरा व्रत क्या है ? मनुष्योंमें जो कोई भी यह कह दे कि 'तुम अपना गाण्डीव धनुष दूसरे किसी धीरको दे डालो, जो अस्त्रविद्या और पराक्रममें तुमसे बढ़कर हो।' तो मैं हठात् उसकी जान ले लूँ। इसी तरह भीमसेनको कोई 'तूवरक' (बिना मूँछका या अधिक खानेवाला) कह दे, तो वे सहसा उसे मार डालें। सो राजाने आपके सामने ही मुझसे

कहा है कि 'तुम अपना धनुष दूसरेको दे डालो। ऐसी दशामें यदि मैं इन्हें मार डालूँ तो इनके बिना एक क्षणके लिये भी मैं इस संसारमें नहीं रह सकूँगा और यदि इनका वध न करूँ तो फिर प्रतिज्ञामङ्गके पापसे कैसे मुक्त होऊँगा ? क्या कहें ? मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं देती। कृष्ण ! संसारके लोगोंकी समझमें मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो और राजा युधिष्ठिरका तथा मेरा जीवन भी सुरक्षित रहे—ऐसी ही कोई सलाह दीजिये।'

श्रीकृष्णने कहा—बोरवर ! मुनो। राजा युधिष्ठिर धक गये हैं और बहुत दुःखी हैं। कृष्णने अपने तीले बाणोंसे इन्हें संग्राममें अधिक धायल कर डाला है। इतना ही नहीं, ये जब युद्ध नहीं कर रहे थे, उस समय भी उसने इनके ऊपर बाणोंका प्रहार किया। इसीलिये दुःख और रोषमें भरकर इन्होंने तुम्हें न कहने योग्य बात कह दी है। ये जानते हैं कि पापी कर्मको सिर्फ तुम्होंने मार सकते हो; और उसके बारे जानेपर कौरवोंको शीघ्र ही जीत लिया जा सकता है। इसी विचारसे इन्होंने वे बातें कह डाली हैं; इसलिये इनका वध करना उचित नहीं है। अर्जुन ! तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना है तो जिस उपायसे ये जीवित रहते हुए मरेके समान हो जायें वही बताता हूँ, मुनो। यही उपाय तुम्हारे अनुरूप होगा। सम्माननीय पुरुष संसारमें जबतक सम्मान पाता है, तबतक ही उसका जीवित रहना माना जाता है, जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाय, उस समय वह जीते-जी 'मरा' समझा जाता है। तुमने, भीमसेनने, नकुल-सहदेवने तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं शूरीरोंने राजा युधिष्ठिरका सदा ही सम्मान किया है। आज तुम उनका अंशतः अपमान करो। यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य होनेके कारण 'आप' कहने योग्य हैं तथापि इन्हें 'तू' कह दो। गुणजनको 'तू' कह देना उनका वध कर देनेके ही समान माना जाता है। जिसके देवता अथवा और अङ्गिरा हैं, ऐसी एक सर्वोत्तम श्रुति बतायी जाती है। अपना भला चाहनेवालोंको बिना विचारे ही इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिये। उस श्रुतिका भाव यह है—'गुरुको 'तू' कह देना उसे बिना मारे ही मार डालना है।' इसलिये जैसा मैंने बताया, उसीके अनुसार तुम धर्मराजके लिये 'तू' शब्दका प्रयोग करो। तुम्हारे मुझसे अपने लिये 'तू' का प्रयोग गुणकर धर्मराज उसे अपना वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम इनके घरणोंमें



प्रणाम करने के सम्बन्धना वेमा और अपनी कही हुई अर्जुनित
 वास्तविक विषय क्षमा माँग लेना । तुम्हारे 'बाई' राजा युधिष्ठिर
 समक्षवाचक हैं, वे प्रसन्नता के साथ अपने भी तुमपर क्रोध नहीं
 करेंगे । इस प्रकार तुम विश्वासार्थ और भ्रान्तप्रथक पापमें
 छूटकर प्रसन्नतापूर्वक शूतपुत्र कर्णवचन ग्रहण करना ।

अपने सत्ता भगवान् श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर
 अर्जुनने उसकी बड़ी प्रशंसा की, फिर वे हठपूर्वक प्रसन्नताके
 प्रति मुझे कट्टरवचन कहने लगे, जेसे पहले कभी नहीं करते थे ।
 वे बोले—'तू चुप रह, न बोल, तू नीले मुख ही नदार्हने भागकर



एक कोम दूर आ बंटा है, तू क्या लगाहना वेमा ? हाँ,
 भीमसेनको मेरी निन्दा करनेका अधिकार है; क्योंकि वे
 स्वयंभू संसारके प्रभुपति और भीमपति हैं । शत्रुओंको
 पीटा पहुँचा रहे हैं । अर्थात् शूरवीरों, अनेकों राजाओं,
 राज्यों, युद्धमयों तथा हजारों हार्थियोंको मोलके मार
 उतारकर काम्योर्जा और पर्वतीय योद्धाओंको हरा तरह
 मार कर रहे हैं, जेसे सिंह मुर्गाको । तू अपने कठोर वचनोंके
 चालके अथ मने न मार, मेरे कोपको फिर न बढ़ा ।

अर्जुन प्रसन्नोक्त थे, वे युधिष्ठिर को ऐसी कठोर वचन
 सुनकर बहुत उद्विग्न हो गये । यह जानकर कि 'मुझसे कोई
 बहुत बड़ा पाप बन गया' अनेके विचारों से उद्विग्न हुआ ।
 धारण्य उद्विग्नत्व स्वीकृत्य ही उद्योगिकि करने लगे और उठा
 गी । यह वेपक श्रीकृष्णने कहा—'अर्जुन ! यह क्या ?

तुम फिर क्यों ललचार उठा रहे हो ? मुझे ज्ञात है,
 तुम्हारा अतीवट्ट रिद्ध करनेके विषय मैं पुनः कोई उपाय
 बताऊँगा ।'

पुरुषोत्तमके ऐसा कहनेपर अर्जुन दुखी होकर बोले—
 'भगवान् ! मैंने जिवमें आकर बाईके अस्मान्मय महान्
 पाप कर दिया है, इसलिये अब अपने इस शरीरको ही नष्ट
 कर डालूँगा ।' अर्जुनकी बात सुनकर भगवान्ने कहा—
 'पाप ! राजा युधिष्ठिरको 'तू' मात्र कहकर तुम इतने धीरे
 मुझमें क्यों ब्रूय गये ? उफ ! इसीके लिये आत्मघात
 करनेका चाहते हो ? अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुषोंने कभी ऐसा काम
 नहीं किया है । प्रसन्नता स्वयंभू है और उद्विग्नता स्वयंभू
 कठिन । अज्ञानियोगिकि विषय तो और भी युष्कल्प है । यहाँ
 जो फलें हैं, उमे में बनावता हूँ, तुमने । 'बाईके घम करनेसे
 जिम भयककी प्राप्ति होती है, उरगे भी भयानक भयक मुझे
 आत्मघात करनेसे मिलेगा । इसलिये अब अपने ही मुँहसे
 अपने मुष्कल खोलन करो, ऐसा करनेसे यही शमभा जायगा
 कि तुमने अपने ही हाथों अपनेको मार लिया ।'

यह सुनकर अर्जुनने श्रीकृष्णकी चार्तांत अस्मान्मय
 किया और 'तुम्हारे' कहकर धनुषकी तन्तों हूय वे
 युधिष्ठिरसे बोले—'राजन् ! अब मेरे मुष्कलके मुष्कल—
 पिनाकधारी भगवान् शंकरको छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे
 समान धनुषी नहीं है; मेरी धीरताका उद्विग्न भी अनुभवी
 किया है । यदि चाहें तो इस शरचक्र जगत्को एकही क्षणमें
 नष्ट कर डालूँगा । मेरे शरणांगि रथ और ध्वजाके चिह्न
 हैं । मुग-जेसा धीर मनि युद्धमें पहुँच जाय तो उमे कोई भी
 नहीं जीत सकता । उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम—इस
 सभी दिशाओंके राजाओंका मैंने रोहार किया है । कृष्ण !
 अब हम दोनों विजयवाची रथपर बैठकर शूतपुत्र कर्णका
 घम करनेके लिये शीघ्र ही चलें । आज राजा युधिष्ठिर
 प्रसन्न हैं, मैं कर्णको अपने धारणांगि नष्ट कर डालूँगा ।' यह
 कहकर अर्जुन पुनः युधिष्ठिरसे बोले—'आत या तो कर्णकी
 मारत पुलहीन होगी या मारत हुजरी ही मारते हीन हो
 जायगी । मैं रह्य कहता हूँ, अपने धारणांगि कर्णको मारे बिना
 आज कचन नहीं उतारूँगा ।'

यह कहकर अर्जुनने मुस्त अपने हाथियार और धनुष
 भीने डाल लिये, सगवार म्यानमें रख दी, फिर लज्जित
 होकर उद्विग्न युधिष्ठिरके चरणोंमें गिर पड़कर और हाथ
 जोड़कर कहा—'महाराज ! मैंने जो कुछ कहा है, उसे क्षमा
 कीजिये और मुझपर प्रसन्न हो जाइये । मैं आपकी प्रणाम
 करता हूँ । अब मैं सब तरहसे प्रयत्न करके भीमसेनको
 युद्धसे छुड़ाने और शूतपुत्र कर्णका घम करनेके लिये जा रहा

हैं। राजन्! मेरा जीवन आपका प्रिय करनेके लिये ही है—यह मैं सत्य कहता हूँ।' ऐसा कहकर अर्जुनने राजाके दोनों चरणोंका स्पर्श किया और फिर वे रणभूमिकी ओर जानेको उद्यत हो गये।

धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुनके कठोर वचनोंकी सुनकर अपने पलंगपर लड़े हो गये, उस समय उनका चित्त बहुत दुखी हो गया था। वे कहने लगे—'पाय! मैंने अच्छे काम



नहीं किये हैं, इसीलिये तुमलोगपर घोर संकट आ पड़ा है। मेरी बुद्धि भारी गयी है, मैं आलसी और डरपोक हूँ, इसलिये आज वनमें चला जाता हूँ। मेरे न रहनेपर तुम मुझसे रहना। महात्मा भीमसेन ही राजा होनेके योग्य हैं,

मैं तो क्रोधो और कायर हूँ। अब मुझमें तुम्हारी ये कठोर बातें सहन करनेकी शक्ति नहीं है। इतना अपमान हो जानेपर मेरे जीवित रहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है।'—यह कहकर वे सहसा पलंगसे कूद पड़े और वनमें जानेको उद्यत हो गये।

यह देख भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें प्रणाम करके कहा—'राजन्! आपको तो सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनकी यह प्रतिज्ञा मालूम ही है कि जो कोई उन्हें गण्डोब धनुष दूसरेको देनेके लिये कह देगा, वह उनका बन्ध होगा। फिर भी आपने उन्हें बंसी बात कह दी। इससे अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हुए मेरे कहनेसे आपका अनादर किया है। गुरुजनोंका अपमान ही उनका यद्य कहलाता है। इसलिये मैंने तथा अर्जुनने जो सत्यकी रक्षाको दृष्टिमें रतकर आपके साथ न्यायके विरुद्ध आचरण किया है, उसे आप क्षमा कीजिये। हम दोनों ही आपकी शरणमें आये हैं। मेरा भी अपराध है, इसके लिये आपके चरणोंपर गिरकर क्षमाकी भील मांगता हूँ। आप मुझे भी क्षमा कर दें। आज यह पृथ्वी पापों कर्णका रक्त-पाद करेगी, मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, अब मृतपुत्रको मरा हुआ ही मान लीजिये।'।

भगवान्की यह बात सुनकर युधिष्ठिरने सहसा उन्हें अपने चरणोंपर से उठाया और हाथ जोड़कर कहा—'गोविन्द! आप जो कुछ कहते हैं, बिलकुल ठीक है, सचमुच ही मुझसे यह भूल हो गयी है। माधव! आपने यह रहस्य बताकर मुझपर बड़ी कृपा की, इन्होंने बचा लिया। आज आपने हमलोगोंकी भयंकर विपत्तिसे रक्षा की। आप-जैसे स्वामीको पाकर ही हम दोनों संकटके भयानक समुद्रसे पार हो गये। हमलोग अज्ञानवशा मोहित हो रहे थे, आपकी ही बुद्धिरूप नौकाका सहारा ले अपने मन्त्रियों-सहित शोकसागरके पार हुए हैं। अच्युत! हम आपसे ही सनाय हैं।'।

अर्जुनका युधिष्ठिरसे क्षमा मांगना, युधिष्ठिरका अर्जुनको आशीर्वाद देना, अर्जुनकी रणयात्रा और भगवान् कृष्णद्वारा अर्जुनके पराक्रमका वर्णन

सञ्जय कहते हैं—महाराज! धर्मराजके मुखसे वह प्रेमयुक्त वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको भी बताया। इधर अर्जुनने भगवान्के कथनानुसार जो युधिष्ठिरका प्रतिवाद किया था, उससे 'कोई पाप बन गया' ऐसा समझकर वे पुनः बहुत उदास हो गये थे। तब भगवान्

श्रीकृष्णने हँसते-हँसते कहा—'अर्जुन! राजा युधिष्ठिरको 'दू' कह देनेमात्रसे जब तुम इस तरह शोकमें डूब गये हो तो राजाका यद्य कर देनेपर तुम्हारी क्या दशा होती? सचमुच धर्मका स्वरूप जानना बड़ा कठिन है, जिनकी बुद्धि मन्द है, उनके लिये तो उसका जानना और भी मुश्किल


है। तुम धर्मनीय होनेके कारण अपने बड़े भाईका वध



करके निश्चय ही घोर अन्धकारमें पड़ते, भयंकर नरकमें गिरते। अब मेरी राय यह है कि तुम कुरुक्षेत्र युधिष्ठिरको ही प्रसन्न करो, जब वे प्रसन्न हो जायें तो हमलोग शीघ्र ही नूतनपुत्र कर्णसे लड़नेके लिये चलें।'

तब अर्जुन बहुत लज्जित होकर राजाके चरणोंमें पड़ गये और बोले 'राजन् ! धर्मपालनकी कामनासे भयभीत होकर मैंने जो कुछ कह डाला है, उसे क्षमा कीजिये और मुनवर प्रसन्न होइये।' धर्मराजने देखा अर्जुन पंशोंपर पड़े हुए रो रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्यारे भाईको उठाकर बड़े स्नेहके साथ गले लगाया और स्वयं भी फूट-फूटकर रोने लगे। दोनों भाई बड़ी देरतक रोते रहे, फिर दोनोंका भाव एक-दूसरेके प्रति शुद्ध हो गया, दोनों ही प्रेम और प्रसन्नतासे भर गये।

तदनन्तर, युधिष्ठिरने पुनः अर्जुनको बड़े प्रेमसे गले लगाया और उनका मस्तक सूँघकर अत्यन्त प्रसन्नताके साथ कहा—'महाबाहो ! मैं युद्धमें पूर्ण प्रयत्नके साथ लड़ रहा था, किंतु कर्णने समस्त सैनिकोंके सामने मेरा कवच, रथकी ध्वजा, धनुष, बाण, शक्ति और घोड़े नष्ट कर डाले। उसके उस कर्मको याद करके मैं दुःखसे पीड़ित हो रहा हूँ, अब जीना अच्छा नहीं लगता। यदि आज युद्धमें उस वीरको



नहीं मार डालोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राणोंको त्याग दूंगा।'

उनके ऐसा कहनेपर अर्जुनने कहा—'राजन् ! मैं नकुल-सहदेव तथा भीमसेनकी संगीध खाता हूँ और अपने हृथियारोंको छूकर सत्यकी शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं कर्णको मार डालूंगा या स्वयं ही मरकर रणभूमिमें शयन करूँगा।' राजासे यों कहकर अर्जुन श्रीकृष्णसे बोले—'माधव ! आज युद्धमें मैं अवश्य कर्णको मारूँगा; आपकी वृद्धिके बलसे ही उस दुरात्माका वध होगा।'

यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले—'अर्जुन ! तुम महाबली कर्णका वध करनेमें स्वयं समर्थ हो। मेरी तो सदा ही यह इच्छा रहती है कि तुम किसी तरह कर्णको मारते।' अर्जुनसे यह कहकर श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरसे बोले—'राजन् ! आप कर्णके वाणोंसे बहुत पीड़ित हो गये हैं—यह सुनकर मैं और अर्जुन—दोनों आपको देखने आये थे। सौभाग्यकी बात है कि आप न तो मारे गये और न उसकी कंदमें ही पड़े। अब अर्जुनको शान्त करके इन्हें विजयके लिये आशीर्वाद दीजिये।'

युधिष्ठिर बोले—'भैया अर्जुन ! आओ, आओ, फिर मेरी छातीसे लग जाओ। तुमने कहने योग्य और हितकी ही

बात कही है तथा मैंने उसके लिये क्षमा भी कर दी । धनञ्जय ! मैं तुम्हें आत्मा देता हूँ । जाओ, कर्णका नाश करो ।

यह सुनकर अर्जुनने पुनः अपने बड़े भाईके चरण पकड़ लिये और उनपर सिर रखकर प्रणाम किया । राजाने उन्हें उठाकर पुनः छातीसे लगाया और उनका मस्तक सूपकर कहा—'धनञ्जय ! तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है, अतः मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हें सनातन विजय प्राप्त हो ।'

अर्जुनने कहा—महाराज ! जिसने आपको बाणसे पीड़ित किया है, उस कर्णको आज अपने पापोंका भयंकर फल मिलेगा । आज उसे मारकर ही आपका दर्शन कर्हेगा । इस सच्ची प्रतिज्ञाके साथ मैं आपके चरणोंका स्पर्श करता हूँ ।

यह सुनकर युधिष्ठिरका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । उन्होंने अर्जुनसे फिर कहा—'पाप ! तुम्हें सदा ही अक्षय यश, पूर्ण आयु, मनोवाञ्छित कामना, विजय तथा बलकी प्राप्ति हो । तुम्हारे लिये मैं जो कुछ चाहता हूँ, वह सब तुम्हें मिले । अब जाओ और शीघ्र ही कर्णका नाश करो ।'

इस प्रकार धर्मराजको प्रसन्न करनेके अनन्तर अर्जुनने श्लोष्णसे कहा—'गोविन्द ! अब मेरा रथ तैयार हो । उसमें उत्तम घोड़े जोते जायें और सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र सजाकर रथ दिये जायें फिर सूतपुत्रका वध करनेके लिये आप शीघ्र ही यात्रा करें ।' अर्जुनके ऐसा कहनेपर श्लोष्णने दारुकसे कहा—'तुम पार्थके कथनानुसार सारी तैयारी करो ।' भगवान्की आज्ञा पाते ही दारुकने रथको सब सामग्रियोंसे सुसज्जित करके उसमें घोड़े जोत दिये और उसे अर्जुनके पास लाकर खड़ा कर दिया । अर्जुनने देला, दारुक रथ जोतकर ले आया, तो उन्होंने धर्मराजसे आज्ञा ली और ब्राह्मणों-द्वारा स्वस्तिवाचन कराकर वे अपने मङ्गलमय रथपर विराजमान हुए । उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनको आशीर्वाद दिये । तत्परचात् अर्जुन कर्णके रथकी ओर चल दिये । कुछ दूर जानेपर उनके मनमें बड़ी चिन्ता हुई । वे सोचने लगे—'मैंने कर्णको मारनेकी प्रतिज्ञा तो की है, किंतु यह किस तरह पूर्ण होगी ?' अर्जुनको चिन्तित देख-भगवान् मधुसूदनने कहा—'गाण्डीवधारी अर्जुन ! तुमने अपने धनुषसे जिन-जिन वीरोंपर विजय पायी है, उन्हें जीतनेवाला इस संसारमें तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं है । जो तुम्हारे-जैसे वीर नहीं हैं, उनमेंसे कौन-सा ऐसा पुरय है, जो द्रोण, भीष्म, भगदत्त, अवन्तीके राजकुमार



विन्द-अनुविन्द, काम्योजराज मुदक्षिण, धृतायु तथा अभ्युतायुका सामना करके कुशलसे रह सकता था ? तुम्हारे पास दिव्यास्त्र हैं, तुममें फुर्ती है, बल है, युद्धके समय तुम्हें घबराहट नहीं होती, तुम्हें अस्त्र-शस्त्रोंका पूर्ण ज्ञान है । लक्ष्यको वेधने और गिरानेकी कला मालूम है । निराशाना मारते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है । तुम चाहो तो गन्धर्वों और देवताओंसहित सम्पूर्ण चराचर जगत्का नाश कर सकते हो ? इस भूमण्डलपर तुम्हारे समान योद्धा है ही नहीं । ब्रह्माजीने प्रजाकी सृष्टि करनेके परचात् इस महान् गाण्डीव धनुषकी भी रचना की थी, जिससे तुम युद्ध करते हो, इसलिये तुम्हारी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है । तो भी तुम्हारे हितके लिये एक बात बता देना आवश्यक है ; तुम कर्णको अपनेसे छोटा समझकर उसकी अवहेलना न करना । मैं तो महारथी कर्णको तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर समझता हूँ । इसलिये पूरा प्रयास करके तुम्हें उसका वध करना चाहिये । वह अग्निके समान तेजस्वी और वायुके समान वेगवान् है, क्रोध होनेपर कालके समान हो जाता है । उसके शरीरकी गठन सिंहके समान है, वह बहुत बलवान् है । उसकी ऊँचाई आठ रत्न (एक सौ अष्टसठ अंगुल) है । भुजाएँ बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी है । उसको जीतना

१. मूठही वंधे हुए हाथकी मापको रत्न कहते हैं ।

बहुत कठिन है। वह महान् शूरवीर और अमिमानी है। उसमें योद्धाओंके सभी गुण हैं। वह अपने मित्र कौरवोंको अभय देनेवाला और पाण्डवोंसे सदा द्वेष रखनेवाला है। मेरा तो ऐसा पयाल है कि सिर्फ तुम्हीं उसे मार सकते हो, और किसीके लिये उसका मारना टेढ़ी खीर है। इसलिये आज ही उस दुरात्मा, क्रूर और पापी कर्णको मारकर अपना मनोरथ पूर्ण करो।

'अर्जुन ! मैं तुम्हारे उस पराक्रमको जानता हूँ, जिसका चारण करना देवता और अनुरोंके लिये भी कठिन है। जैसे सिंह मतवाले हाथीको मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने घत और पराक्रमसे शूरवीर कर्णका संहार करो— इसके लिये मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम शत्रुओंके लिये दुर्द्वेष हो, तुम्हारे ही आश्रयमें रहकर ये पाण्डव और पाञ्चाल रणमें डटे हुए हैं। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हुए इन पाण्डव, पाञ्चाल, मत्स्य, कुरुप तथा चेदिदेशीय वीरोंने असत्य शत्रुओंका संहार कर डाला है। तुम्हारे संरक्षणमें युद्ध करनेवाले पाण्डव-महारथियोंके सिवा दूसरा कौन है, जो संग्राममें कौरवोंको परास्त कर सके। तुम तो देवता, अचुर और मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको युद्धमें जीत सकते हो, फिर कौरवसेनाका तो विनाश ही क्या है? कोई इन्द्रके समान भी पराक्रमी क्यों न हो, तुम्हारे सिवा कौन राजा भगदत्तको जीत सकता था? अज्ञोहिणो सेनाके स्वामी तथा युद्धमें कभी पीछे पर न हटानेवाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, जयद्रथ, शल्य तथा दुर्योधन—जैसे महारथियोंपर तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन विजय पा सकता है? भयंकर पराक्रम दिखानेवाले तुषार, यवन, दश, दार्षाभितार, वरद, शक, माठर, तङ्गण, आग्ध्र, पुलिन्द, किरात, म्लेच्छ, पर्वतीय तथा समुद्रके तटपर रहनेवाले योद्धा शत्रुधर्म भरकर दुर्योधनकी सहायताके लिये आये हैं, इन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जीत सकता।

यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहाकारमें खड़ी हुई कौरवोंकी विशाल सेनापर कौन चढ़ाई कर सकता था? तुम्हारे ही सहायतासे पाण्डवपक्षके वीरोंने उसका संहार किया है। भीष्मजी अस्त्रविद्यामें बड़े प्रवीण थे, उन्होंने चेदि, काशी, पाञ्चाल, कुरुप, मत्स्य तथा केकयदेशीय वीरोंको बाणोंसे आच्छादित करके मार डाला था। वे जब एक बार धनुषकी मूठ पकड़ते तो हजारों रथियोंका सफाया कर डालते थे। उनके द्वारा लाखों मनुष्यों और हाथियोंका संहार हुआ। दस दिनोंके युद्धमें तुम्हारी बहुत-सी सेनाका विध्वंस करके उन्होंने कितने ही रथ

सूने कर दिये। संग्राममें भगवान् रुद्र और विष्णुके समान अपना भयंकर रूप प्रकट करके चेदि, पाञ्चाल और केकय वीरोंका संहार करते हुए उन्होंने रथों, घोड़ों और हाथियोंसे भरी हुई पाण्डव-सेनाका विनाश कर डाला। इस प्रकार भीष्मजी अद्वितीय वीर थे, परंतु उन्हें भी शिल्पण्डोंने तुम्हारे संरक्षणमें रहकर अपने बाणोंका निशाना बनाया। आज वे बाण-शम्यापर पड़े हुए हैं। पार्थ ! जयद्रथका वध करते समय युद्धमें तुमने जैसा पराक्रम किया था, वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? राजालोप सिन्धुराजके वधको तुम्हारा आश्चर्यजनक पराक्रम मानते हैं; पर मैं ऐसा नहीं समझता; क्योंकि तुम्हारे-जैसे वीरसे ऐसा काम होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि यदि सारा क्षत्रियसमाज एकत्रित होकर तुम्हारा सामना करने आ जाय तो वह एक ही दिनमें नष्ट हो जायगा और मेरे विचारसे ही यही तुम्हारे योग्य पराक्रम होगा।

'अर्जुन ! जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये, तभीसे कौरवोंको इस भयंकर सेनाका भानो सर्वस्व लुप्त गया। इसके प्रधान-प्रधान योद्धा नष्ट हो गये, इतमें घोड़ों, रथों और हाथियोंका अभाव हो गया। इस समय यह सेना सूर्य, चन्द्रमा और ताराओंसे रहित आकाशकी भाँति श्रीहीन दिखायी दे रही है। इसके प्रमुख वीरोंमेंसे और सब तो मारे गये, केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, शल्य तथा कृपाचार्य—ये ही पाँच महारथी बाकी रह गये हैं। इन पाँचों को मारकर तुम शत्रुहीन हो जाओ और राजा युधिष्ठिरको द्वीप, नगर, समुद्र, पर्वत, बड़े-बड़े वन तथा आकाश और पाताल-सहित समस्त पृथ्वी अर्पण कर दो। यदि अपने गुरु आचार्य द्रोणका सम्मान करनेके कारण तुम उनके पुत्र अश्वत्थामापर कृपादृष्टि रखते हो अथवा आचार्यका पौरव रखनेके लिये कृपाचार्यपर तुम्हें दया आती हो, यदि माताके वन्धुजनोंके प्रति आदर-बुद्धि होनेसे तुम कृतवर्माको सामने पाकर भी पमलोक नहीं भेजना चाहते तथा माता माद्रीके भाई मद्रराज शल्यको भी दयावश मारना नहीं चाहते तो न सही, किंतु पाण्डवोंके प्रति अत्यन्त नीचतापूर्ण बर्ताव करनेवाले इस पापी कर्णको तो आज तीखे बाणोंसे मार ही डालो। यह तुम्हारे लिये पुण्यका काम होगा। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ; कर्णका वध करनेमें कोई दोष नहीं है।

'दुर्योधनने पाँचों पुत्रोंसहित माता कुन्तीको आधी रातके समय जो लाक्षाभवनमें जलानेकी कोशिश की तथा तुमलोगोंके साथ जो वह जुआ खेलनेमें प्रवृत्त हुआ, उन सब

वद्युद्धोंका मूल कारण यह दुष्टात्मा कर्ण ही था। दुर्योधनको सदासे ही यह विश्वास था कि कर्ण मेरी रक्षा करेगा, इसीलिये यह शोधमें भरकर मुझे भी कंध करके लो तैयार हो गया था। उसने तुमलोगके साथ जो-जो बुराईयाँ की हैं, उन सबमें इस पापदाता कर्णकी ही प्रधानता है। मिव ! दुर्योधनके छः निर्दयी महारथियोंने मिलकर जो सुभद्राकुमारको जान ली थी, उस भयंकर संग्राममें इस कर्णने ही अभिमन्युका धनुष काटा था। कर्णद्वारा धनुष कट जानेपर शेष पाँच महारथियोंने, जो छल-कपटमें बड़े प्रवीण थे, बाणोंकी बौछारसे उसे मार डाला। उस वीरके इस तरह मारे जानेपर प्रायः सबको दुःख हुआ; केवल ये दुष्ट कर्ण और दुर्योधन ही जी भरकर हँसे थे। इतना ही नहीं, इसने कौरवोंकी भरी सभामें द्रौपदीको इस प्रकार कटवचन सुनाये थे—‘कृष्ण ! पाण्डव तो नष्ट होकर सदाके लिये नरकमें पड़े गये ! अब तू दूसरा पति चरण कर ले। आजसे तू धृतराष्ट्रको दासी हुई; अतः राजमहलमें जाकर अपना काम संभाल। अब पाण्डव तुम्हारे स्वामी नहीं रहे। वे तेरे लिये कुछ कर भी नहीं सकते। तू दासीकी स्त्री है और स्वयं भी दासी है।’ इस तरह इस पापिने बहुत-सी धातें कहीं, जो तुमने भी सुनी थीं। इसके अलावे भी इसने तुमलोगके साथ अन्याय करके जो-जो पाप किये हैं उन सबको तथा इसके जीवनको भी तुम्हारे बाण नष्ट करें। आज दुरात्मा कर्ण अपने शरीरपर गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए भयंकर बाणोंकी चोट सहता हुआ आचार्य द्रोण तथा भीष्मके वचन याद करे। तुम्हारे साथियोंसे पीड़ित हुए राजालोग आज दोन और विषादयुक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्णको रथसे नीचे गिरता देखें। राजा शल्य भी आज तुम्हारे संकड़ों

बाणोंसे छिन्न-भिन्न हुए रथी और अश्वसे रहित रथको छोड़े भयभीत होकर भाग जायें। पायें ! यदि तुम सूतपुत्र कर्णके देखते-देखते अपनी प्रतिज्ञापूर्तिके लिये उसके पुत्रको मार डालो तो वह भीष्म, द्रोण और विदुरकी बातोंको याद करे। तुम्हारा मुख्य शत्रु दुर्योधन तुम्हारे हाथसे कर्णको मारा गया देख आज अपने जीवन तथा राज्यसे निरासा हो जाय। जान पड़ता है, पञ्चालदेशीय वीर, द्रौपदीके पुत्र, धृष्टद्युम्न, शल्यज्जी, धृष्टद्युम्नके पुत्र, शतानीक, नकुल-सहदेव, दुर्मुख, जनमेजय, सुधर्मा तथा सात्यकि—ये कर्णके वशमें पड़े गये हैं। उनका घोर आतंताद सुनायी पड़ता है। जो अपने मित्रके लिये प्राणोंको परवा न करके सामने उटकर लड़ रहे हैं, उन संकड़ों पाञ्चाल वीरोंको कर्ण यमलोक भेज रहा है। ये कर्णरूपी अगाध महासागरमें नावके बिना डूब रहे हैं, अब तुम्हें ही नौका बनकर उनका उद्धार करना चाहिये। कर्णने भृगुवंशी परशुरामजीसे जो अस्त्र प्राप्त किया था, उसीका अत्यन्त भयंकर रूप आज प्रकट हुआ है। वह घोर अस्त्र अपने तेजसे प्रखलित हो तुम्हारी सेनाको सब ओरसे घेरकर संताप दे रहा है। यह देवो, भीम सृञ्जय-योद्धाओंसे घिरे हुए हैं और अत्यन्त शोधमें भरकर कर्णसे लड़ते हुए उसके पंने बाणोंसे पीड़ित हो रहे हैं। मैं युधिष्ठिरकी सेनामें तुम्हारे सिवा और किसी वीरको ऐसा नहीं देखता, जो कर्णसे लोहा लेकर कुशलपूर्वक घर लौट आवे। इसलिये तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार तेज किये हुए बाणोंसे आज कर्णको मारकर उज्ज्वल कीर्ति प्राप्त करो। वीरवर ! मैं सच कहता हूँ, एक तुम्हें कर्णसहित कौरवोंको युद्धमें जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं। अतः महारथी कर्णको मारकर तुम अपना मनोरथ सफल करो।’



अर्जुनके वीरोचित उद्गार, दोनों पक्षकी सेनाओंमें द्वन्द्वयुद्ध, सुपेणका वध, भीमसेनका पराक्रम तथा अर्जुनके आनेसे उनकी प्रसन्नता

सृञ्जय कहते हैं—महाराज ! भगवान् श्रीकृष्णका भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षणमें शोकरहित एवं परम प्रसन्न हो गये। फिर प्रत्यञ्चा मुधारकर गाण्डीव धनुषकी टंकार करते हुए उन्होंने केशवसे कहा—‘गोविन्द ! जब आप मेरे स्वामी एवं संरक्षक हैं तो मेरी विजय निश्चित है। संसारके भूत और भविष्यका निर्माण आपके हाथमें है, जिसपर

आप प्रसन्न हैं, उसकी विजयमें क्या संदेह है ? कृष्ण ! कर्णकी तो बात ही क्या है ? आपके सहायता मिलनेपर तो मैं अपने सामने आये हुए तीनों लोकोंको परलोकका पथिक बना सकता हूँ। जनादंन ! मैं देखता हूँ—पाञ्चालीकी सेना भाग रही है। यह भी देख रहा हूँ कि कर्ण रणभूमिमें निर्भय-सा विचरता है। उस प्रखलित भागवात्सकी ओर



भी मेरी दृष्टि है, जिसे कर्णने प्रकट किया है। निश्चय ही, यह वह संग्राम है, जहाँ कर्ण मेरे हाथसे मारा जायगा और जयतक यह पृथ्वी कायम रहेगी, तबतक समस्त प्राणी इस वातकी चर्चा करेंगे। आज मेरे गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए वाण कर्णकी मौतके घाट उतारेंगे। कृष्ण ! मैं आपसे सच्ची बात बता रहा हूँ, आज कर्णके मारे जानेसे दुर्योधन अपने राज्य और जीवन—दोनोंसे निराश हो जायगा। मेरे वाणोंसे कर्णके टुकड़े-टुकड़े हुए देख आज राजा दुर्योधन आपके उन वचनोंको स्मरण करे, जिन्हें आपने उसकी भलाईके लिये कहा था। कौरवोंकी सभामें पाण्डवोंकी निन्दा करते हुए कर्णने द्रौपदीसे जो कठोर बातें कही थीं, उनके लिये आज उसे खूब पश्चात्ताप होगा। आज कर्णके मारे जानेपर धृतराष्ट्रके सभी पुत्र राजा दुर्योधनके साथ इस तरह भयभीत होकर भागेंगे, जैसे सिंहसे डरे हुए भूग भागते हैं। कर्णके पुत्र और मित्रोंको भी आज जीवित नहीं रहने दूंगा। सूतपुत्रकी मौत देखकर राजा दुर्योधन अब अपने लिये चिन्ता करे। आज राजा धृतराष्ट्रको उनके पुत्र-पौत्र, मन्त्री तथा सेवकोंसहित राज्यकी ओरसे निराश कर दूंगा। आज मैं अकेला ही कौरवों तथा बाह्लीकोंकी सेनासहित मारकर अपने वाणोंकी ज्वालामें जला डालूंगा। मेरे एक हाथमें वाणकी तथा दूसरेमें वाणसहित दिव्य धनुषकी

रेखाएँ हैं, पंरोंमें भी रथ और ध्वजाके चिह्न हैं। मेरे-जैसे लक्षणांवाले योद्धाको कोई भी युद्धमें नहीं जीत सकता।

भगवान्से ऐसा कहकर अद्वितीय वीर अर्जुन क्रोधसे लाल आँखें किये रणभूमिमें जा पहुँचे। उस समय उनके मनमें दो संकल्प थे—भीमसेनको संकटसे छुड़ाना और कर्णके मस्तकको धड़से अलग कर देना।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! मेरे पुत्रों तथा पाण्डव-सञ्जयोंमें पहले से ही महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। फिर जब अर्जुन वहाँ आ पहुँचे तो युद्धका स्वरूप कैसा हो गया ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! उस समय अर्जुन घोड़े और सारथिसहित रथों, सवारसहित हाथियों और घोड़ों, पैदलों एवं सम्पूर्ण शत्रुओंको अपने वाण-समूहोंकी मारसे मृत्युके अधीन करने लगें। उनके पहुँचनेके पहले कृपाचार्य और शिखण्डी एक दूसरेसे भिड़े थे। सात्यकिने दुर्योधनपर धावा किया था, श्रुतश्रवाका अश्वत्थामासे और युधामन्युका चित्रसेनके साथ युद्ध हो रहा था। उत्तमौजाने कर्णके पुत्र



सुयेणपर और सहदेवने शकुनिपर आक्रमण किया था। नकुलकुमार शतानीक और कर्णपुत्र वृषसेनमें मुकाबला हो रहा था। नकुलने कृतवर्मापर और धृष्टद्युम्नने सेनासहित कर्णपर चढ़ाई की थी। दुःशासनने संशप्तकोंकी सेना लेकर भीमसेनपर धावा किया था। उस संग्राममें उत्तमौजाने

कर्णपुत्र मुपेणको अपने बाणोंका निशाना बनाकर उसका मस्तक काट गिराया। मुपेणका सिर पृथ्वीपर पड़ा देख कर्ण ध्यातुल हो उठा। उसने क्रोधमें भरकर उत्तमीजके घोड़ोंको मार डाला और पंने बाणोंसे उसके ध्वजा तथा रथकी भी ध्वजियाँ उड़ा दीं। उत्तमीजा भी अपने तील्ले बाणों तथा चमकती हुई तलवारसे कृपाचार्यके पादर्वरक्षकों एवं घोड़ोंकी मारकर शिलण्डीके रथपर जा चढ़ा। रथपर बंटे हुए शिलण्डीने कृपाचार्यको रथहीन देख जनपर प्रहार करनेका विचार छोड़ दिया। तदनन्तर, अवयत्यामाने आगे आकर कृपाचार्यके रथको अपने पीछे छिपा दिया और उनका उस रणसे उद्धार किया। दूसरी ओर भीमसेन अपने पंने बाणोंकी मारसे आपके पुत्रोंकी सेनाको अत्यन्त संताप देने लगे।

उस घमासान युद्धमें बहुत-से शत्रुओंद्वारा घिरे हुए भीमसेन अपने सारथिसे बोले—‘सारथे ! तू घोड़ोंको तेज हाँककर मुझे शीघ्र धृतराष्ट्रके पुत्रोंके पास ले चल, आज उन सबको मैं यमलोक पहुँचाये देता हूँ !’ आता पाते ही सारथिने घोड़ोंको चाल तेज की और तुरन्त ही रथ लिये आपके पुत्रोंकी सेनामें जा पहुँचा। कौरव-पक्षके घोड़ा भी सब ओरसे हाथी, घोड़े, रथ और पंदलोंकी साथ ले आगे बढ़ आये। भीमके रथपर चारों ओरसे बाणोंकी बौछार होने लगी और भीम उन सबको अपने बाणोंसे काटने लगे। उन्होंने शत्रुओंके छोड़े हुए प्रत्येक बाणके दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर डाले। तदनन्तर, उनके द्वारा मारे गये हाथी, घोड़े, रथ और पंदल जवानोंका क्षीत्कार सुनायी देने लगा। भीमसेनके बाणोंकी मारसे राजाओंके अङ्ग विदीर्ण हो रहे थे, तो भी उन्होंने उनपर सब ओरसे धावा कर दिया। तब भीमने अपना प्रचण्ड वेग प्रकट किया, जिसे शत्रु रोक न सके। महाम्ना भीमके द्वारा भस्म होती हुई आपकी सेना भयभीत हो रणसे भाग चली। यह देख भीम प्रसन्न होकर पुनः अपने सारथिसे बोले—‘सूत ! ये जो ध्वजाओंसहित बहुत-से रथ इस ओर बढ़ते चले आ रहे हैं ये अपने हैं या शत्रुओंके ? इसकी पहचान कर लेना। युद्ध करते समय मुझे अपने-परायका ज्ञान नहीं रहता। कहीं ऐसा न हो कि अपनी ही सेनाको बाणोंसे आच्छादित कर डालूँ। विशोक ! राजा युधिष्ठिर बाणोंके प्रहारसे बहुत घबराये हुए है। इधर, अर्जुन उन्हें देखने गये थे, सो अभीतरक नहीं लीटें। पता नहीं, राजा अबतक जीवित है या नहीं ? अर्जुनका भी समाचार नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा खेद हो रहा है। तो भी मैं शत्रुओंकी प्रचण्ड सेनाका मंहार करूँगा। तू मेरे रथपर रखले हुए सभी तरकसोंकी जाँच कर ले, अब उनमें कितने बाण बाकी रह गये हैं। किस-किस तरहके बाण बचे

है और उनकी संख्या कितनी है ? यह सब समझकर बता।’

विशोकने कहा—‘वीरवर ! अब अपने पास साठ हजार मार्गण हैं, दस-दस हजार क्षुर और भल्ल हैं, दो हजार नाराच बचे हैं तथा तीन हजार प्रवर हैं। अभी इतने अस्त्र-शस्त्र बाकी रह गये हैं कि छः बँलोसे जुता हुआ छकड़ा भी उन्हें नहीं खींच सकता। गदाएँ तथा तलवारें हजारोंकी संख्यामें पड़ी हैं। प्रास, मुद्गर, शक्ति और तोमर भी बहुत हैं। आप इसके डरमें न रहें कि हमारे अस्त्र-शस्त्र जल्दी समाप्त हो जायेंगे।’

भीमसेन बोले—‘सूत ! आज अकेले मैं ही समस्त कौरवोंको मार गिराऊँगा या वे ही मुझे पीड़ित करेंगे। इस




समय देवता लोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दें; जैसे यज्ञमें आवाहन करते ही इन्द्र आ पहुँचते हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ आ जायें। विशोक ! इस छिन्न-भिन्न होती हुई कौरव-सेनाको ओर तो दृष्टि डाल, ये राजालोग क्यों भाग रहे हैं ? मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि नरभ्रेष्ठ अर्जुन यहाँ आ पहुँचे, वे ही अपने बाणोंसे सम्पूर्ण सेनाको आच्छादित कर रहे हैं। कौरवोंपर मोह छा गया है, सब-के-सब भाग रहे हैं। रणमें हाहाकार मचा है। हाथी बड़े जोरोंसे विघाट रहे हैं।’

विशोकने कहा—कुमार भीमसेन ! क्रोधमें भरे हुए अर्जुनके द्वारा साँचे जानेवाले गाण्डीव धनुषकी भयंकर टंकार क्या तुम्हें नहीं सुनायी देती ? पाण्डुनन्दन ! लो, तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी हुईं, उधर देखो, हाथियोंकी सेनामें अर्जुनके रथकी ध्वजाका वानर दिखायी देता है। वह ध्वजाके ऊपर चढ़कर शत्रुओंको भयभीत करता हुआ चारों ओर देख रहा है। मैं स्वयं भी उसे देखकर डर रहा हूँ। अर्जुनका वह विचित्र मुकुट, जिसमें सूर्यके समान चमकीली मणि लगी हुई है, फितना सुन्दर है ? उनकी बगलमें देवदत्त नामवाला श्वेत शङ्ख है। इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके पाश्र्वमें सूर्यके समान कान्तिमान् चक्र है, जो उनका यश बढ़ानेवाला है। यदुवंगी सदा उसकी पूजा किया करते हैं। श्रीकृष्णके पास उनका पाञ्चजन्य भी है, जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल है। देखो, भगवान्के वक्षःस्थलपर कौस्तुभमणि तथा

वैजयन्ती माला कंसी शोभा पा रही है ? निश्चय ही श्यामसुन्दर घोड़े हाँकते हैं और महारथी अर्जुन शत्रुओंकी सेनाको खदेड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं। वह देखो, अर्जुनने अपने वाणोंसे घोड़े और सारथिसहित चार सौ रथियोंको मार डाला, सात सौ हाथियोंका सफाया किया और हजारों घुड़सवारों तथा पैदलोंको मौतके घाट उतार दिया है। इस प्रकार कौरव-योद्धाओंका संहार करने हुए महाबली अर्जुन अब तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया।

भीमसेन बोले—विशोक ! तुमने बड़ा प्रिय समाचार सुनाया, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है, इस शुभ-संवादके लिये मैं तुम्हें चौदह गाँवोंकी जागीर दूंगा। साथ ही सौ दासियाँ तथा बीस रथ भी तुम्हें पारितोषिकके रूपमें मिलेंगे।



अर्जुन और भीमसेनके द्वारा कौरव-सेनाका संहार, भीमके हाथसे शकुनिका मूर्च्छित होना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! जैसे देवराज इंद्रने हाथमें वज्र लेकर जम्भासुरको मारनेके लिये यात्रा की थी, उसी प्रकार अर्जुनने भी रथमें बँठकर विजयके लिये यात्रा की। उन्हें आते देख कौरव-पक्षके नरवीर क्रोधमें भरकर रथ, घोड़े, हाथी और पैदलोंको साथ ले अर्जुनके सामने चढ़ आये। फिर तो त्रिलोकीका राज्य पानेके लिये जैसे असुरोंके साथ देवताओं और भगवान् विष्णुका युद्ध हुआ, उसी प्रकार उन योद्धाओंके साथ अर्जुनका संग्राम होने लगा। वह संग्राम देह, प्राण और पापोंका नाश करनेवाला था। उस समय कौरववीरोंने छोटे-बड़े जितने अस्त्रोंका प्रयोग किया, उन सबको क्षुर, अर्धचन्द्र तथा तीखे भल्लोंसे अर्जुनने अकेले ही काट डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके मस्तक और भुजाएँ काटकर छत्र, चँयर, ध्वजा, घोड़े, रथ, पैदल तथा हाथी आदिको भी नष्ट कर दिया। वे सब विरूप हो-होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। इस प्रकार धनञ्जय अपने वज्रके समान वाणोंसे शत्रुओंके घोड़े, हाथी और रथ आदिकी धज्जियाँ उड़ाकर फर्णको मार डालनेकी इच्छासे तुरंत उसके पास जा पहुँचे। उन्हें वहाँ देख आपके सैनिक रथी, घुड़सवार, हाथीसवार तथा पैदलोंकी सेना साथ लेकर पुनः उनपर दूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें पंने वाणोंसे बाँधने लगे। तब अर्जुनने भी अपने वाण उठाये और उनकी मारसे

हजारों रथियों, हाथीसवारों तथा घुड़सवारोंको यमलोक भेज दिया। इस प्रकार जब कौरव महारथियोंपर अर्जुनके वाणोंकी मार पड़ी तो वे भयभीत होकर इधर-उधर छिपने लगे। तो भी उन्होंने उनमेंसे चार सौ महारथियोंको तीखे वाण मारकर यमलोकका अतिथि बना ही दिया। तरह-तरहके तीखे तीरोंकी चोट खाकर वे धँर्य खो बैठे और अर्जुनको छोड़कर सब ओर भाग निकले। इस प्रकार उस सेनाको खदेड़कर अर्जुनने सूतपुत्रकी सेनापर धावा किया। इसी समय प्रतापी भीमसेनने अर्जुनके शुभागमनका समाचार सुना। फिर तो वे अपने प्राणोंकी भी परवा न करके आपकी सेनाको कुचलने लगे। उस समय उनके अलौकिक बलको देख कौरवसैनिकोंके होश उड़ गये।

तब राजा दुर्योधनने अपने महान् धनुर्धर योद्धाओंको आदेश दिया—'वीरो ! मार डालो भीमसेनको, इसके मारे जानेपर मैं पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेनाको मारी हुई ही मानता हूँ।' राजाओंने आपके पुत्रकी आज्ञा स्वीकार की और भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर उनपर वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। तब भीमने भी वाणोंकी ऋद्धी लगायी और उस महासेनामें दरार बनाकर वे घेरते-बाहर निकल आये। तत्पश्चात् उन्होंने दस हजार हाथियों, दो लाख दो सौ पैदलों, पाँच हजार घोड़ों और एक सौ रथोंका संहार करके



खूनकी नदी बहा दी। महारथी भीम शत्रुओंकी सेनामें जिस ओर घुस जाते, उधर ही लाखों घोड़ाओंका सफाया कर डालते थे। उनका यह पराक्रम देख दुर्गोधनने शकुनितसे कहा—‘भामाजी ! आप महाबली भीमकी परास्त कीजिये, इसको जीत लेनेपर मैं पाण्डवोंकी विशाल सेनाको भी जीती हुई ही समझता हूँ।’

यह सुनकर शकुनितने महानु संप्राम करनेके लिये संघार हो अपने भाइयोंकी भी साथ लिया और भीमसेनके पास पहुँचकर उन्हें आगे बढनेसे रोक दिया। अब भीमसेन

शकुनितकी ओर मुड़े। शकुनितने उनकी छातोंमें बायें हिना पर अनेकों तीले नाराचोंसे प्रहार किया। वे भीमका कवच छेदकर शरीरके भीतर घुस गये। उनसे अत्यन्त घायल होकर भीमने बड़े रोपके साथ शकुनितपर एक बाण चलाया; फिर शकुनितने उसके सात टुकड़े कर डाले। फिर दो भल्लें सारथिकी और सातसे भीमसेनकी बाँध डाली। इसके बाद एक भल्लसे ध्वजा और दोसे छत्र काट दिया। फिर चारोंसे बाणोंसे भीमके चारों घोड़ोंको भी घायल कर दिया।

तब भीमसेनकी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सुवपुत्रपर लोहेकी बनी हुई एक शक्ति चलायी। पास आते ही शकुनितने उस शक्तिकी हाथसे पकड़ लिया और शकुनितने फिर भीमपर ही चला दिया। भीमकी बायें भुजा चोट करती हुई वह शक्ति जमीनपर जा पड़ी। भीमने प्राणोंकी परवा न करके अपने बाणोंसे शकुनितसेनाको भाग्यदित कर दिया। फिर उसके चारों घोड़ों तथा सारथिकी मारकर एक भल्लसे उसके रथकी ध्वजा भी काट डाली। शकुनित तुरन्त ही रथसे कूदकर एक अलग जगह लौट आया और घनूय टंकारता हुआ भीमपर चारों ओरसे बाणोंकी घुट्टि करने लगा। यह देख प्रतापी भीम बड़े वेगसे उसपर आघात किया, फिर उसका घनूय काट कर उसे तीले बाणोंसे बाँध डाला। बलवानु शत्रुके आघात से अत्यन्त घायल होकर शकुनित पृथीपर गिर पड़ा। शकुनित मूर्च्छित जानकर आपका पुत्र दुर्गोधन आया और अपने रथपर बिठाकर रणभूमितसे दूर हटा ले गया। अब कौरव-योद्धा भयभीत होकर चारो दिसाओंमें भागने लगे और भीमसेन सैकड़ों बाणोंकी वर्षा करते हुए बड़े वेगने उन पीछा करने लगे। उनकी मारसे पीड़ित हो वे सबके-के-के घोड़ा कर्णकी शरणमे गये। महाराज ! उस समय कर्ण उनका रक्षक हुआ।

कर्णकी मारसे पाण्डवसेनाका पलायन, श्रीकृष्ण और अर्जुनको आते देख शल्य और कर्णकी बातचीत तथा अर्जुनद्वारा कौरव-सेनाका विध्वंस

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! भीमसेनने जब कौरव योद्धाओंको तितर-बितर कर दिया, उस समय दुर्गोधन, शकुनित, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुःशासनने क्या कहा ? सुवपुत्रने कौन-सा पराक्रम किया ? मेरे पुत्रों तथा अन्य दुर्द्वेष राजाओंने क्या काम किया ? ये सारो

सञ्जयने कहा—महाराज ! उस दिन तीसरे पहर प्रतापी सुवपुत्रने भीमसेनके देवते-द्वेषते समस्त सोमकी संहार कर डाला तथा भीमसेनने भी कौरवोंकी अत्यन्त बलवती सेनाका विध्वंस कर दिया। तत्परचात् कर्ण शल्यसे कहा—‘अब मेरा रथ पाण्डवातोंकी ओर ही

चेदि, पञ्चाल तथा कश्यपदेशीय वीरोंकी ओर बढ़ाया । कर्णका रथ देखते ही पाण्डव और पाञ्चाल वीर थर्रा उठे । तदनन्तर कर्ण अपने सँखड़ों वाणोंसे मारकर पाण्डव-सेनाके सौ-सौ तथा हजार-हजार वीरोंको गिराने लगा । यह देख पाण्डव-पक्षके अनेकों महारथियोंने पहुँचकर कर्णको चारों ओरसे घेर लिया । उस समय सात्यकिने तेज किये हुए बीस वाणोंसे कर्णके गलेकी हँसलीमें प्रहार किया । फिर शिखण्डीने पच्चीस, धृष्टद्युम्नने सात, द्रौपदीके पुत्रोंने चौसठ, सहदेवने सात और नकुलने सौ वाण मारकर कर्णको घायल कर डाला । इसी प्रकार भीमसेनने कर्णकी हँसलीपर नव्वे वाण मारे ।

तदनन्तर, सूतपुत्रने हँसकर अपने धनुषकी टंकार की और तेज किये हुए वाणोंका प्रहारकर उन सब योद्धाओंको



कर्णका यह अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आँखों देखा था । जैसे भेंड़िया पशुओंको भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्णने पाण्डव-योद्धाको आतङ्कित करके खदेड़ दिया । पाण्डवोंकी सेनाकी भागती देख कौरवपक्षके धनुर्धर योद्धा भैरव-गर्जना करते हुए सामनेकी ओर बढ़ आये । राजा दुर्योधन अत्यन्त आनन्दमें भरकर तरह-तरहके वाजे बजवाने लगा । वाजोंकी आवाज सुनकर पाञ्चाल-महारथी मरनेकी परवा न करके वहाँ लौट आये । कर्णने उनमेंसे बहुताँके पाँव उखाड़ दिये । पञ्चालदेशके बीस रथियों तथा चेदिदेशके सँकड़ों योद्धाओंको भी अपने सायकोंसे यमलोक पहुँचा दिया । इस प्रकार पाण्डवपक्षके बहुत-से योद्धाओंका नाश हो गया और महाबली भीमके सामने युद्ध करनेसे आपके भी बहुत-से वीर मारे गये ।

इधर, अर्जुन कौरवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका विनाश करके जब आगे बढ़े तो क्रोधमें भरे हुए सूतपुत्रपर उनकी दृष्टि पड़ी, तब उन्होंने भगवान् वासुदेवसे कहा—'जनार्दन ! वह देखिये, रणमें सूतपुत्रकी ध्वजा दिखायी दे रही है तथा ये भीमसेन आदि योद्धा कौरव-महारथियोंसे लड़ रहे हैं । इधर, पाञ्चाल योद्धा कर्णके भयसे भागे जाते हैं । उधर कर्णके संरक्षणमें रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा राजा दुर्योधनकी रक्षा कर रहे हैं । यदि हमलोगोंने इन्हें मारा नहीं तो ये सोमकोंका संहार कर डालेंगे । अतः मेरा विचार यह है कि आप महारथी कर्णके पास मुझे ले चलें, अब मैं संप्राममें कर्णका वध किये बिना पीछे नहीं लौटूंगा ।'

तब भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके साथ द्वैरथ युद्ध करानेके लिये आपकी सेनामें कर्णकी ओर अपना रथ बढ़ाया । वे रथपर बैठे-ही-बैठे चारों ओर खड़ी हुई पाण्डव-सेनाकी धीरज बँधाते जाते थे । वीरवर अर्जुन आपकी सेनाको परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे । श्वेत घोड़ेवाले रथपर बैठकर अपने सारथि भगवान् कृष्णके साथ अर्जुनको आते देख मद्रराज शल्यने कर्णसे कहा—'कर्ण ! तुम दूसरे लोगोंसे जिनका पता पूछते फिरते थे वे कुन्तीनन्दन अर्जुन अपना गाण्डीव धनुष लिये हुए सामने खड़े हैं, वह उनका रथ आ रहा है । यदि आज उन्हें मार डालोगे तो हमलोगोंका भला होगा । अर्जुनके धनुषकी प्रत्यञ्चामें चन्द्रमा एवं ताराओंके चिह्न हैं, उनकी ध्वजाके शिखरपर भयंकर वातर दिखायी पड़ता है, जो चारों ओर ताक-ताककर वीरोंका भी भय बढ़ा रहा है । ये अर्जुनके रथपर बैठकर घोड़े हाँकते हुए भगवान् श्रीकृष्णके शङ्ख, चक्र, गदा तथा शार्ङ्ग धनुष दीख रहे हैं । यह गाण्डीव टंकार रहा है तथा अर्जुनके छोड़े

बोध डाला । उसने सात्यकिका धनुष और ध्वजा काटकर उसकी छातीमें नौ वाणोंका प्रहार किया । फिर क्रोधमें भरकर भीमको भी तीस वाणोंसे घायल किया । एक भल्लसे सहदेवकी ध्वजा काटकर तीन वाणोंसे उसके सारथिको भी मार डाला तथा द्रौपदीके पुत्रोंको रथहीन कर दिया । यह सारा काम पलक मारते-मारते हो गया । देखनेवालोंके लिये यह बड़े आश्चर्यकी बात हुई । महारथी कर्णने चेदि तथा मत्स्य देशके योद्धाओंको भी अपने तीखे तीरोंका निशाना बनाया । उसकी मार जाकर वे भयभीत होकर भाग चले ।



हुए तीखे तीर शत्रुओंके प्राण ले रहे हैं। आज यह रणभूमि राजाओंके कटे हुए मस्तकोंसे पटी जा रही है। पुण्य क्षीण होनेपर स्वर्गसे गिरनेवाले प्राणियोंकी तरह ये नाना देशोंके नरेश अपने रथोंसे गिरकर धराशायी हो रहे हैं। जैसे सिंह हजारों हरिणोंके झुंडको घबराहटमें डाल देता है, उसी प्रकार अर्जुनने अपने शत्रुओंकी सेनाको अत्यन्त व्याकुल कर डाला है। अर्जुन तनिक-सी डेरमें बहुसंख्यक शत्रुओंका अन्त कर देते हैं, इसीलिये उनके भयसे यह कौरव-सेना चारों ओरसे टिप्त-भिन्न हो रही है। यह देखो, अर्जुन सब सेनाओंको छोड़कर तुम्हारे पास पहुँचनेकी जल्दी कर रहे हैं। भोमसेन को पीड़ित देख वे भ्रोग्रसे तमतमा उठे हैं, इसलिये आज तुम्हारे सिवा और किसीसे युद्ध करनेके लिये नहीं रुक सकेंगे। तुमने धर्मराजको रथहीन करके उन्हें वृहत घायल कर डाला है, सिखण्डी, धृष्टद्युम्न, द्रौपदीके पुत्र, सात्यकि, उत्तमीजा, नकुल तथा सहदेवको भी तुम्हारे हाथों वृहत चोट पहुँची है; यह सब देखकर अर्जुनकी आँखें भोघसे लाल हो गयी हैं, ये समस्त राजाओंका संहार करनेकी इच्छासे अकेले ही तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। कर्ण! अब तुम भी इनका सामना करनेके लिये आये बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा, दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा नहीं है, जो अर्जुनसे लोहा ले सके। केवल तुम्हीं युद्धमें श्रीकृष्ण और अर्जुनको परास्त करनेकी शक्ति रखते हो, तुम्हारे ही ऊपर यह भार रखा गया है; अतः धनञ्जय-

का मुकाबला करो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्यके समान बली हो, इस महासमरमें आगे बढ़ते हुए अर्जुनको रोको। देखो, ये कौरव-सेनाके महाटयी अर्जुनके भयसे भागे जाते हैं, द्रुतनन्दन! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है, जो इनका भय दूर करे। ये समस्त कौरव तुम्हें द्वेषके समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ रहे हैं और तुमसे शरण पानेकी आशा रखकर यहाँ खड़े हुए हैं।

कर्णने कहा—शल्य! अब तुम राहपर आये हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो! अर्जुनसे भय न करो। आज मेरी इन भुजाओं और शिक्षाका बल देतना। मैं अकेला ही पाण्डवोंकी विशाल सेना तथा श्रीकृष्ण और अर्जुनका घघ कहूँगा। यह तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। उन दोनों वीरोंको मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पर नहीं हटाऊँगा। दोमेसे एक काम करके कृतार्थ होऊँगा—या तो उन्हें माहूँगा या स्वयं मर जाऊँगा।

शल्यने कहा—कर्ण! महारथी लोग अर्जुनको अकेले होनेपर भी युद्धमें जोतना असम्भव मानते हैं, फिर जब ये श्रीकृष्णसे सुरक्षित हों, तब तो कहना ही क्या है? ऐसी दशामें यहाँ उन्हें जीतनेका साहस कौन कर सकता है?

कर्णने कहा—मैं मानता हूँ, अर्जुन-जैसा महारथी इस संसारमें कभी हुआ ही नहीं। उनके हाथ प्रत्यञ्चाके चिह्नसे अड्डित हैं, उनमें न कभी पसोना आता है और न ये काँपते ही हैं। अर्जुनका धनुष भी मजबूत है। वे बड़े कार्यकुशल और शीघ्रतापूर्वक हाथ चलानेवाले हैं। पाण्डुनन्दन अर्जुनके समान दूसरा योद्धा कहीं है ही नहीं। उनके बाण दो भील-तकके निशाने मारनेमें नहीं चुकते फिर उनके-जैसा योद्धा इस पृथ्वीपर कौन हो सकता है? अतिरथी वीर अर्जुनने केवल श्रीकृष्णकी सहायतासे खाण्डव वनमें अग्निदेवको तृप्त किया था, जहाँ महात्मा श्रीकृष्णको चक्र मिला और पाण्डुनन्दनको गाण्डीव धनुष, श्वेत घोड़ोंसे जुता हुआ रथ, कभी खाली न होनेवाले दो तरकस तथा बहुत-से दिव्यस्त्र प्राप्त हुए। ये सभी वस्तुएँ अग्निदेवने भेंट की थी। इसी प्रकार उन्होंने इन्द्रलोकमें जाकर असंख्य कालकेयोंका संहार किया था, जहाँ उन्हें देवदत्त नामक शत्रुकी प्राप्ति हुई। अतः इस भूमण्डलमें उनसे बढ़कर योद्धा कौन होगा? जिन महानुभावने अपनी सुन्दर युद्धकलाके द्वारा साक्षात् महादेव-जोको प्रसन्न किया और उनसे अत्यन्त भयंकर पाशुपतनामक महान् अस्त्र प्राप्त किया, जो विभुवनका संहार करनेमें समर्थ है। जिन्हें समस्त लोकपालोंने अलग-अलग अनेकों अनुपम दिव्यस्त्र प्रदान किये हैं तथा जिन्होंने विराटनगरमें

अकेले ही हम सब महारथियोंको जीतकर सारा गोधन छीन लिया और महारथियोंके वस्त्र भी उतार लिये, ऐसे पराक्रम और गुणोंसे सम्पन्न अर्जुनको, जिनके साथ श्रीकृष्ण भी मौजूद हैं, युद्धके लिये ललकारना बहुत बड़े दुःसाहसका काम है—इस बातको मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ । इसके सिवा, समस्त संसार मिलकर जिनके गुणोंको दस हजार वर्षोंमें भी नहीं गिन सकता, जो शङ्ख, चक्र और खड्ग धारण करनेवाले हैं, वे अन्तपराक्रमी साक्षात् भगवान् नारायण ही अर्जुनकी रक्षा कर रहे हैं । श्रीकृष्ण और अर्जुनको एक रथपर बैठे देना मुझे भय लगता है, हृदय कांप उठता है । अर्जुन समस्त धनुर्धारियोंसे बढ़कर हैं तथा चक्रयुद्धमें नारायण-स्वरूप श्रीकृष्णका मुकाबला करनेवाला भी कोई नहीं है । वे दोनों चीर ऐसे पराक्रमी हैं । हिमालय अपने स्थानसे हट जाय, पर श्रीकृष्ण और अर्जुन नहीं दिचलित हो सकते । वे दोनों महारथी शूरवीर और अस्त्र विद्याके विद्वान् हैं, दोनोंके ही अस्त्र-शास्त्र सुदृढ़ हैं । शल्य ! चताओ तो सही, ऐसे पराक्रमी श्रीकृष्ण और अर्जुनका मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है ? आज ऐसा युद्ध होगा, जैसा पहले-कभी नहीं हुआ था । या तो मैं ही इन दोनोंको मार गिराऊँगा या वे ही मेरा वध कर डालेंगे ।

ऐसा कहकर शत्रुहन्ता कर्णने मेघके समान गर्जना की । फिर वह आपके पुत्र दुर्योधनके निकट गया । दुर्योधनने उसका अभिनन्दन किया और छातीसे लगाया । तब कर्णने कुरुराज दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भाइयोंसहित शकुनि, अश्वत्थामा और अपने छोटे भाईसे तथा हाथीसवार, घुड़-सवार एवं पैदल सैनिकोंसे कहा—‘राजाओ ! आपलोग श्रीकृष्ण और अर्जुनपर धावा करके उन्हें चारों ओरसे घेर

लें और सब ओरसे युद्ध छोड़कर अच्छी तरह थका डालें । आपके द्वारा जब वे बहुत घायल हो जायेंगे तो मैं उन दोनोंको सुगमतासे मार सकूँगा ।’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर अर्जुनको मारनेकी इच्छासे वे सभी वीर उनपर दूट पड़े और अपने बाणोंका प्रहार करने लगे ।

उन महारथियोंके चलाये हुए बाणोंको अर्जुनने हँसते-हँसते काट डाला और आपकी सेनाको भस्म करना आरम्भ किया । यह देख कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा अश्व-त्यामा अर्जुनकी ओर दौड़े और उनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । अर्जुनने अपने सायकोंसे उनके बाणोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले और बड़ी फुर्तीके साथ उन्होंने प्रत्येक महारथी-को छातीमें तीन-तीन बाण मारे । तब अश्वत्यामाने दस बाणोंसे धनुञ्जयको, तीनसे श्रीकृष्णको और चारसे उनके चारों घोड़ोंको बाँध डाला, फिर उनकी ध्वजापर बैठे हुए वानरको उसने अनेकों बाणों तथा नाराचोंका निशाना बनाया । यह देख अर्जुनने तीन बाणोंसे अश्वत्यामाके धनुषको, एकसे सारथिके मस्तकको, चार सायकोंसे उसके चारों घोड़ोंको तथा तीनसे उसकी ध्वजाको काटकर रथसे नीचे गिरा दिया । इसके बाद उन्होंने कृपाचार्यके भी बाण-सहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोड़े तथा सारथिको नष्ट कर दिया । फिर उन्हें भी हजारों बाणोंके घेरेमें कँद कर लिया । तत्पश्चात् अर्जुनने दहाड़ते हुए दुर्योधनके ध्वजा और धनुष काट दिये, कृतवर्माके घोड़ोंको मार डाला तथा उसके रथकी ध्वजा भी खण्डित कर दी । फिर बड़ी फुर्तीके साथ उन्होंने आपकी सेनाके घोड़ों, सारथियों, तरकसों, ध्वजाओं, हाथियों और रथोंका सफाया कर डाला । उस समय आपकी विशाल सेना छिन्न-भिन्न होकर इधर-उधर बिखर गयी ।

अर्जुन और भीमसेनके द्वारा कौरववीरोंका संहार तथा कर्णका पराक्रम

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! दूसरी ओर कौरवोंके प्रधान-प्रधान वीरोंने भीमसेनपर धावा किया था । कुन्ती-नन्दन भीम कौरव-समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि अर्जुन उन्हें उबारनेकी इच्छासे वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने तूतपुत्र-को सेनाको छोड़कर कौरवोंपर चढ़ाई की और शत्रुवीरोंको यमलोक भेजना आरम्भ कर दिया । अर्जुनके छोड़े हुए बाण आकाशमें पहुँचकर फँले हुए जालके समान दिखायी देते थे । जहाँ पक्षियोंके झुंड उड़ा करते थे, उस आकाशको बाणोंसे व्याप्त कर धनुञ्जय कौरवोंके फाल बन गये । वे

मल्लों, क्षुरप्रों तथा उज्ज्वल नाराचोंसे शत्रुओंके अङ्ग-अङ्ग छेद डालते और मस्तक काट लेते थे । रणभूमि गिरे हुए और गिरते हुए योद्धाओंकी लाशोंसे ढक गयी थी । अर्जुनके बाणोंसे छिन्न-भिन्न हुए रथ, हाथी और घोड़ोंके कारण वहाँकी जमीन वृत्तरणी नदीके समान अगम्य हो गयी थी, उसे देखकर बड़ा भय मालूम होता था, उधर देखना कठिन हो रहा था । उस समय क्रूर महावतोंकी प्रेरणासे चार-सौ हाथी चढ़ आये, जिन्हें अर्जुनने बाणोंसे मार गिराया । जैसे समुद्र में तफानके आगमने

जाता है, उसी प्रकार उनके साथकोंकी मारसे कौरव-सेना छिन्न-भिन्न हो गयी। गण्डोव धनुषसे छूटे हुए नाना प्रकारके बाण बिजलीकी भाँति आपकी सेनाको दग्ध करने लगे। जिस प्रकार बहुत बड़े जंगलमें दावानलसे डरे हुए मृग इधर-उधर भागते हैं वैसे ही रणभूमिमें अर्जुनके बाणोंसे आहत हुई कौरव-सेना चारों ओर भाग चली। जब समस्त कौरव युद्धसे विमूल हो गये तो विजयी अर्जुनने भीमसेनके पास पहुँचकर थोड़ी देर विश्राम किया। फिर, भीमसे मिलकर उन्होंने कुछ सलाह की और यह बताया कि 'राजा युधिष्ठिरके शरीरसे बाण निकाल दिये गये हैं; तथा इस समय वे अच्छी तरहसे हैं।' इस प्रकार कुशल-भङ्गत कहकर भीमसेनकी आज्ञा ले अर्जुन कर्णकी सेनाकी ओर चल दिये। इसी समय आपके दस वीरोंने अर्जुनको घेर लिया और उन्हें बाणोंसे पीड़ित करना आरम्भ किया। परंतु भगवान् श्रीकृष्णने रथ बढ़ाकर उन्हें अपने दाहिने भागमें कर दिया। अर्जुनके रथकी दूसरी ओर जाते देख वे पुनः उनपर दूट पड़े। तब उन्होंने उनके रथकी ध्वजा, धनुष और साथकोंको नाराचो तथा अर्धचन्द्रोंसे तुरंत काट गिराया, फिर दूसरे दस भक्तोंसे उनके मस्तक उड़ा दिये। इस प्रकार उन दस कौरवोंको भीतके घाट उतारकर अर्जुन आगे बढ़े।

उन्हें जाते देख कौरव-पक्षके संघातक योद्धा, जिनकी संख्या नब्बे थी, युद्धके लिये अग्रसर हुए। उन्होंने यह शपथ लेकर कि 'यदि पीछे हटें तो हमें परलोकमें उत्तम गति न मिले' अर्जुनकी सब ओरसे घेर लिया। भगवान् श्रीकृष्णने उनकी परवा न करके अपने तेज चलनेवाले घोड़ोंको कर्णके रथकी ओर हाँक दिया। यह देख संघातकोंने उनपर बाणोंकी वृष्टि करते हुए पीछा किया। तब अर्जुनने पैंने बाणोंसे उनके सारथि, धनुष और ध्वजाको मट्ट करके उन्हें भी यमलोक पहुँचा दिया। उनके मारे जानेपर कौरव-महार्थियोंने रथ, हाथी तथा घोड़ोंकी सेना लेकर अर्जुनपर धावा किया, उस समय उनके मनमें तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने पास आते ही शक्ति, ऋषि, तोमर, प्राप्त, गदा, तलवार तथा बाणोंसे अर्जुनको ढक दिया। उनकी शस्त्रवर्षा आकाशमें चारों ओर छा गयी, किंतु अर्जुनने बाण मारकर उसे तुरंत ही नष्ट कर डाला। इसके बाद आपके पुत्र दुर्योधनकी आज्ञा पाकर तेरह सौ मतवाले हाथियोंपर बँटे हुए मत्तच्छातिका योद्धा अर्जुनकी दोनों बगलमें घोट करने लगे। वे कर्ण, मालीक, नाराच, तोमर, प्राप्त, शक्ति, मुसल और मिदिपालोंकी मारसे पार्थको पीडा देने लगे। तब अर्जुनने तीले भल्लो और अर्धचन्द्राकार बाणोंसे मत्तच्छोढाकार की हुई शस्त्रवर्षाको शान्त कर दिया। फिर नाना प्रकारके बाणोंसे

हाथियोंको उनके सवारोंसहित मार डाला। जब अधिकांश



सेना नष्ट हो गयी तो बचे-बचूचे लोग ध्याकुल होकर भाग चले। उस समय भीमसेन अर्जुनके पास आ पहुँचे और मरनेसे बचे हुए घुड़सवारोंकी अपनी गदासे मट्ट करने लगे। उन्होंने बहुतसे हाथियों और पैदलोंपर भी उस भयंकर गदाका प्रहार किया। उसके आघातसे योद्धाओंके तिर फूटे, हड्डियाँ टूटीं और पाँव उलड़ गये तथा वे आर्तनाद करते हुए पृथ्वीपर गिर गये। इस प्रकार दस हजार पैदलोंका सफाया करके क्रोधमें भरे हुए भीम हाथमें गदा लिये इधर-उधर विचरने लगे। महाराज ! उस समय आपके सैनिकोंने गदाधारी भीमकी देखकर घड़ी समझा कि साक्षात् यमराज ही कालदण्ड लिये यहाँ आ पहुँचे हैं। अब भीमने हाथियोंकी सेनामें प्रवेश किया और अपनी बड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षणमें सबको यमलोक पहुँचा दिया। गजसेनाका संहार कर मही-बली भीम पुनः अपने रथपर आ बँटे और अर्जुनके पीछे-पीछे चलने लगे।

तदनन्तर, कौरवोंमें बड़े जोरसे आर्तनाद होने लगा। हाथी, घोड़े तथा पैदलोंके प्राण लेनेवाले अर्जुनके बाणोंकी मारसे सब लोग हाहाकार मचा रहे थे, सबपर अत्यन्त भय छा गया था, सभी एक दूसरेकी आड़में छिपना चाहते थे। इस तरह आपकी सम्पूर्ण सेना उस समय अलातचक्रके सामान घूम रही थी। उस घटमें कोई भी रथी, सवार, घोड़ा या

हाथी ऐसा नहीं बचा था, जो अर्जुनके बाणोंसे घायल नहीं हुआ हो। उनका यह पराक्रम देख सभी कौरव कर्णके जीवनसे निराश हो गये। सबने गाण्डीवधारी के प्रहारको अपने लिये असह्य समझा और उनसे परास्त होकर सब पीछे हट गये। सायकांसे त्रिध जानेके कारण वे भयभीत हो रणभूमिमें कर्णकी अकेला ही छोड़कर भाग चले। किंतु सहायताके लिये सूतपुत्र कर्णको ही पुकारते थे।

महाराज ! इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्णके रथके पास गये। वे संकटके अगाध समुद्रमें डूब रहे थे, उस समय कर्ण ही द्वीपके समान उनका रक्षक हुआ। कर्म करनेवाले जीव, मृत्युसे डरकर जैसे धर्मकी शरण लेते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र भी अर्जुनसे भयभीत हो कर्णकी शरणमें पहुँचे थे। कर्णने देखा, ये खूनसे लथपथ हो रहे हैं, बड़े संकटमें पड़े हैं और बाणोंकी चोटसे व्याकुल हैं, तो उसने उनमें कहा—'मेरे पास आ जाओ, डरो मत।' इसके बाद कर्णने खूब सोच-विचारकर मन-ही-मन अर्जुनके वधका निश्चय किया और उनके देखते-देखते उसने पाञ्चालोंपर आक्रमण किया। यह देख पाञ्चाल-राजाओंकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं, वे कर्णपर बाणोंकी वृष्टि करने लगे। तब कर्णने भी हजारों बाण मारकर पाञ्चालोंको मौतके मुलमें भेज दिया। अब वह पञ्चालदेशीय राजकुमारोंका नाश करने लगा। उसने 'अञ्जलिक' नामक बाण मारकर जनमेजयके सारथिको नीचे गिरा दिया और उसके घोड़ोंको भी मार डाला। फिर शतानीक तथा सुतसोमपर भल्लोंकी वृष्टि करके उन दोनोंके धनुष काट दिये। छः बाणोंसे धृष्टद्युम्नको वींधा और उसके घोड़ोंका भी काम तमाम किया। इसी तरह सात्यकिके घोड़ोंको नष्ट करके सूतपुत्रने केकयराजकुमार विशोकका भी वध कर डाला। राजकुमारके मारे जानेपर केकयसेनापति उपक्रमनि कर्णपर धावा किया। उसने अपने भयंकर वेगवाले बाणोंसे कर्णके पुत्र प्रसेनको घायल कर दिया। तब कर्णने तीन अर्धचन्द्राकार बाणोंसे उपक्रमकी दोनों भुजाएँ और मस्तक काट डाले। वह प्राणहीन होकर जमीनपर जा पड़ा। उधर, जब कर्णने सात्यकिके घोड़े मार डाले तो उसके पुत्र प्रसेनने तेज किये हुए सायकांसे सात्यकिको ढक दिया। इसके बाद सात्यकिके बाणोंका निशाना बनकर वह स्वयं भी धराशायी हो गया।

पुत्रके मारे जानेपर कर्णके हृदयमें क्रोधकी आग जल उठी, उसने सात्यकिकपर एक शबुसंहारकारी बाण छोड़ा और कहा 'शंनै ! अब तू मारा गया।' किंतु कर्णके उस बाणको

शिखण्डीने काट दिया और उसे भी तीन बाणोंसे वींध डाला। तब कर्णने दो क्षुरोंसे शिखण्डीको ध्वजा और धनुष काट दिये तथा छः बाणों से उसे भी वींध दिया। इसके बाद उसने धृष्टद्युम्नके पुत्रका सिर धड़से अलग कर दिया और एक तीक्ष्ण बाण मारकर सुतसोमको भी घायल कर डाला। तत्पश्चात् सूतपुत्रने सोमकोंका संहार करते हुए बड़ा भारी संग्राम छोड़ा। उनके बहुत-से घोड़े, रथ और हाथियोंका नाश करके उसने सम्पूर्ण दिशाओंको बाणोंसे आच्छादित कर दिया। तब उत्तमौजा, जनमेजय, युधामन्यु, शिखण्डी तथा धृष्टद्युम्न—ये सभी गर्जना करते हुए क्रोधमें भरकर कर्णके सामने आये और उसपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। इन पाँचोंने कर्णपर जोरदार हमला किया, किंतु सब मिलकर भी उसे रथसे गिरानेमें सफल न हो सके। कर्णने उनके धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथि और पताका आदिको काटकर पाँच बाणोंसे उन पाँचोंको भी वींध डाला। जिस समय वह बाणोंसे पाञ्चालोंपर प्रहार कर रहा था, उस समय उसके धनुषकी टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था कि अब पर्वत और वृक्षोंसहित सारी पृथ्वी फट जायगी। उसने शिखण्डीको बारह, उत्तमौजाको छः और युधामन्यु, जनमेजय तथा धृष्टद्युम्नको तीन-तीन बाण मारे। इस प्रकार सूतपुत्र कर्णने उन पाँचों महारथियोंको परास्त कर दिया। वे कर्णरूपी समुद्रमें डूबना ही चाहते थे कि द्रौपदीके पुत्रोंने वहाँ पहुँचकर उन्हें रणसामग्रीसे सजे हुए रथोंमें बिठाया और इस प्रकार अपने मामाओंका संकटसे उद्धार किया।

तत्पश्चात् सात्यकिकने कर्णके छोड़े हुए बहुत-से बाणोंको अपने तीखे तीरोंसे काट डाला। फिर कर्णको भी घायल कर आठ बाणोंसे आपके पुत्र दुर्योधनको वींध डाला। तब कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा कर्ण—ये चारों मिलकर सात्यकिकपर तीक्ष्ण सायकोंकी वर्षा करने लगे। जैसे चार दिक्पालोंके साथ अकेले दैत्यराज हिरण्यकशिपुका युद्ध हुआ था, उसी प्रकार इन चारों वीरोंके साथ यदुकुलभूषण सात्यकिकने अकेले ही लोहा लिया। इतनेहीमें उबत पाञ्चाल-महारथी कवच पहिन दूसरे रथोंपर बैठकर वहाँ आ पहुँचे और सात्यकिकी रक्षा करने लगे। उस समय शत्रुओंका आपके सैनिकोंके साथ घोर युद्ध हुआ। कितने ही रथी, हाथीसवार, घोड़सवार और पैदल योद्धा नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे आच्छादित हो इधर-उधर भटकने लगे। वे परस्परके ही धक्केसे लड़खड़ाकर गिर जाते और आर्तस्वरसे चोत्कार मचाने लगते थे। बहुतेरे सैनिक प्राणोंसे हाथ धोकर रणभूमिमें सो रहे थे।

भीमद्वारा दुःशासनका रक्त-पान और उसका वध, युधामन्युद्वारा चित्रसेनका वध तथा भीमका हर्षोद्गार

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! जब वह भयंकर संघाम चल रहा था, उसी समय राजा दुर्योधनका छोटा भाई आपका पुत्र दुःशासन निर्भय हो बाणोंकी वर्षा करता हुआ भीमसेनपर चढ़ आया । उसे देखते ही भीमसेन भी दौड़े और जिस प्रकार 'रथ' भूगपर सिंह आक्रमण करता है, वैसे ही वे उसके निकट आ पहुँचे । फिर तो शम्बरामुर और इन्द्रके समान क्रोधमें भरे हुए उन दोनों धीरोंमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, दोनोंही प्राणोंकी बाजी लगाकर लड़ने लगे । इसी बीचमें भीमसेनने अपनी कुर्ती दिखाते हुए दो क्षुरोसे आपके पुत्रके धनुष और ध्वजाकी काट डाला, एक बाणसे



उसके सलाहमें घाय किया और दूसरोंसे उसके सारथिकका मस्तक भी घटने अलग कर दिया । तब दुःशासनने भी दूसरा धनुष उठाकर भीमको बारह बाणोंसे बंध डाला और स्वयं ही घोड़ोंको काबूमें रखते हुए उसने पुनः उनके ऊपर बाणोंकी झड़ी लगा दी । इसके बाद दुःशासनने भीमसेनपर एक भयंकर बाण चलाया, जो उनके अङ्गोंको छेद डालनेमें समर्थ और बज्जेके समान असह्य था । उससे भीमसेनका शरीर छिद गया, वे बहुत शिथिल हो गये और

प्राणहीनकी तरह बाँहें फैलाकर रथपर लुढ़क गये । घोड़े ही देरमें जब होश हुआ तो वे पुनः सिंहके समान बहाड़ने लगे ।

उस समय तुमुल युद्ध करते हुए दुःशासनने ऐसा पराक्रम दिखाया, जो दूसरोंसे होना कठिन था । उसने एक बाणसे भीमसेनका धनुष काटकर साठ बाणोंसे उनके सारथिकों भी बंध डाला । इसके बाद अच्छे-अच्छे बाणोंसे वह भीमको घायल करने लगा । तब भीमसेनने क्रोधमें भरकर आपके पुत्रपर एक भयंकर शक्ति चलायी । उसे सहसा अपने ऊपर आती देख आपके पुत्रने दस बाणोंसे काट डाला । उसके इस दुष्कर कर्मको देत सभी सैनिक हर्षमें भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे । परंतु भीमसेनका क्रोध और बढ़ गया । वे उसकी ओर रोपमयी दृष्टिसे देत आगववूला होकर कहने लगे—'वीर दुःशासन ! आज तुने तो मुझे बहुत घायल किया, किंतु अब तू भी मेरी गदाका आघात सहन कर ।' यों कहकर उन्होंने दुःशासनका वध करनेके लिये अपनी भयंकर गदा हाथमें ली और फिर कहा—'दुरात्मन् ! आज इस संग्राममें मैं तेरा रक्त पान करूँगा ।'

भीमके ऐसा कहते ही दुःशासनने उनके ऊपर एक भयंकर शक्ति चलायी, इधरसे भीमने भी अपनी भयानक गदा घुमाकर फेंकी । वह गदा दुःशासनकी शक्तिको टूक-टूक करती हुई उसके मस्तकमें जा गयी । गदाके आघातसे दुःशासनका रथ दस धनुष पीछे हट गया । उसके शरीरपर भी बहुत सख्त चोट पहुँची थी, कवच टूट गया, आसूयण और हार बिलर गये, कपड़े फट गये तथा वह अत्यन्त वेदनासे व्याकुल हो छटपटाने लगा और कांपता हुआ जमीनपर गिर पड़ा । इतना हो नहीं, उस गदासे दुःशासनके घोड़े मारे गये और उसके रथको भी ध्वजिया उड़ गयीं । दुःशासनको इस अवस्थामें देख पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा अत्यन्त प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे ।

इस प्रकार आपके पुत्रको गिराकर भीमसेन हर्षमें भर गये और सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए जोर-जोरसे गर्जना करने लगे । यह भरव-नाद सुनकर आस-पास लड़े हुए योद्धा मूर्च्छित होकर गिर गये । उस समय भीमसेनको पिछली बातें याद हो आयीं 'देवी द्रौपदी रजस्वला थी, उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, तो भी उसके केश लौंच गये और भरो सभामें बस्त्र उतारा गया ।' साथ ही कौरवोंद्वारा दिये हुए और भी बहुत-से

स्मरण करके भीमसेन क्रोधसे जल उठे तथा वहाँ खड़े हुए कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मसे कहने लगे—'योद्धाओ ! मैं पायी दुःशासनको अभी मारे डालता हूँ, तुम सब लोग मिलकर उसे बचा सको तो बचाओ ।'

यों कहकर भीमसेन रथसे कूद पड़े और दुःशासनको मार डालनेकी इच्छासे दीड़ते हुए उसके पास जा पहुँचे । फिर सिंह जैसे बहुत बड़े हाथीको दबोच लेता है, उसी प्रकार उन्होंने कर्ण और दुर्योधनके सामने ही दुःशासनको धर दवाया । इसके बाद उसकी ओर भाँखें गड़ाकर देखते हुए भीमने तलवार उठायी और एक पैरसे उसका गला दबा दिया । उस समय दुःशासन थर-थर काँप रहा था । अब उसकी ओर देख भीमसेन बोले—'दुःशासन ! याद है न वह दिन, जब कि तूने कर्ण और दुर्योधनके साथ बड़े हर्षमें भरकर मुझे 'बल' कहा था । दुरात्मन् ! राजभूषण-यज्ञमें अबमृत्युस्नानसे पवित्र हुए महारानी द्रौपदीके केशोंको तूने किस हाथसे खींचा था ? वता, आज भीमसेन तुझसे इसका उत्तर चाहता है ।'

भीमका यह भयंकर वचन सुनकर दुःशासनने उनकी ओर देखा । उस समय उसकी त्वीरी बदल गयी, वह क्रोधसे जल उठा और बड़े आवेशमें आकर बोला— 'यह है वह हाथ, जो हाथीके गण्ड-दण्डके समान बलिष्ठ है, जिसने सहस्रों गीर्वाणोंका दान तथा कितने ही सन्निय-वीरोंका संहार

किया है । भीमसेन ! उस समय जब कि प्रधान-प्रधान कौरव, अन्यान्य सभासद् तथा तुम लोग भी बँठे-बँठे देख रहे थे, मैंने इसी दाहिने हाथसे द्रौपदीके केश खींचे थे !'

दुःशासनकी यह गर्वमयी बात सुनकर भीमसेन उसकी छातीपर चढ़ बैठे और अपने दोनों हाथोंसे उसकी दाहिनी बाँह पकड़कर बड़े जोरसे दहाड़ने लगे । फिर सम्पूर्ण योद्धाओंको सुनाकर बोले—'मैं दुःशासनकी बाँह उखाड़े लेता हूँ, अब यह प्राण त्यागना ही चाहता है । जिसमें ताकत हो वह आकर इसको मेरे हाथसे बचा ले ।' इस प्रकार समस्त वीरोंपर आक्षेप करके महाबली भीमने क्रोधमें भरकर उसकी बाँह उखाड़ ली । दुःशासनकी वह भुजा वज्रके समान कठोर थी, भीमसेन उसीसे सब वीरोंके सामने उसको पीटने लगे । इसके बाद दुःशासनकी छाती फाड़कर वे उसका गरम-गरम



रक्त पीने लगे । तदनन्तर, उन्होंने तलवार उठायी और उसका मस्तक धड़से अलग कर दिया । इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर दिखानेके लिये भीमने दुःशासनका गरम-गरम रक्त पान किया । वे उसका स्वाद लेकर कहने लगे— 'मैंने माताके दूधका, शहद और धोका तथा दिव्य रसका भी आस्वादन किया है, दूध और दहीसे बिलोपे हुए ताजे माखनका भी स्वाद लिया है । इनके अलावे भी संसारमें बहुत-से पान करने योग्य पदार्थ हैं, जिनमें अमृतके समान

मधुर स्वाद है; परंतु मेरे शत्रुके इस रक्तका स्वाद तो उन सबसे बिलक्षण है, इसमें सबसे अधिक रस है !'

यों कहकर वे वारंवार उसके रक्तका आस्वादन करते और अत्यन्त हर्षमें भरकर उछलने-कूदने लगते थे । उस समय जिन्होंने उनकी ओर देखा, वे भयसे ध्याकुल हो पृथ्वी-पर गिर पड़े । जो ध्वराये नहीं, उनके हाथोंसे भी हर्षियार तो गिर ही पड़ा । कितने ही भयके मारे आँवें बंद करके चौखने-चिल्लाते लगे । रक्त पीते समय उनका रूप बड़ा भयंकर जान पड़ता था । उस समय बहुत-से योद्धा भीमतीत



होकर 'अरे ! यह मनुष्य नहीं राक्षस है' ऐसा कहते हुए चित्रसेनके साथ भागने लगे । चित्रसेनको भागते देख युधामन्युने अपनी सेनाके साथ उसका पीछा किया और तेज किये हुए सात बाण मारकर उसे बाँध डाला । चित्रसेनने भी युधामन्युको तीन और उसके सारथिकको छः बाण मारे । तब युधामन्युने धनुषको कानतक खींचकर एक तीला बाण चलाया और चित्रसेनका मस्तक धड़से अलग कर दिया । अपने भाईके मरनेसे कर्ण प्रोधमें भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पाण्डव-सेनाको भगाने लगा । उस समय अत्यन्त तेजस्वी नवुत्तने आगे बढ़कर उसका सामना किया ।

इधर, भीमसेन दुःशासनके रथतको अपनी अञ्जलिमें लेकर विकट गर्जना करते हुए सब धीरोंको मुनाकर बोले— 'नीच दुःशासन ! यह देख, मैं तेरे गलेका रक्त पी रहा हूँ ।

अब फिर आनन्दमें भरा हुआ तू मुझे 'बल-बल' कहकर पुकार तो सही । उन दिन कौरव-समामें जो लोग मुझे 'बल-बल' कहकर घुसीके मारे नाच उठते थे, उन सबको आज वारंवार 'बल' बनाता हुआ मैं स्वयं नाचता हूँ । भुक्त विष पिलाकर नदीमें डाल दिया गया, जहाँ काले साँपोंने डँसा । फिर हमलोगोंकी लाशगूहमें जलानेका पट्टवन्ध हुआ और जूएमें सारा राज्य छीनकर हमें जंगलमें रहनेको मजबूर किया गया । सबसे घोर दुःख तो इस बातका है कि भरी समामें द्रोपदीका केश खींचा गया । युद्धमें हमें दुःस-दायक बाणोंको मार सहनी पड़ती है और धरमें भी कमी सुख नहीं मिलता । राजा विराटके भवनमें जो बलेश भोगना पड़ा—सो तो अलग है । शकुनि, दुर्योधन और कर्णकी सलाहसे हमें जो-जो कष्ट सहने पड़े, उन सबका मूल कारण तू ही था !'

यो कहकर अत्यन्त प्रोधमें भरे हुए भीमसेन शोकपूर्ण और अर्जुनके पास गये । उस समय उनका शरीर खूनसे लथपथ हो रहा था । वे मूसकराते हुए बोले—'धीरो ! मैंने



युद्धमें दुःशासनके विषयमें जो प्रतिज्ञा की थी, उसे आज पूर्ण कर दिया । अब इस रणयज्ञमें दुर्योधनकी वज्रपशुका वध करके दूसरी आहुति डालना और इन कौरवोंकी आँवोंके मामने ही जब उम दुरातमाका सिर परीसे टुकराकर कुचन डालना, तभी मुझे शान्ति मिलेगी ।' ऐसा बहकर वे गरजने

धृतराष्ट्रके दस पुत्रोंका वध, कर्णका भय और शल्यका समझाना, नकुल और वृषसेनका युद्ध, अर्जुनद्वारा वृषसेनका वध तथा कर्णके विषयमें श्रीकृष्ण-अर्जुनकी बातचीत

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! दुःशासनके मारे जाने-पर आपके पुत्र निपङ्गी, क्वची, पाशी, दण्डधार, धनुर्धर, अतीतुप, सह, पण्ड, वातवेग और सुवर्चा—ये दस महारथी एक साथ भीमसेनपर दूट पड़े और उन्हें बाणोंकी वृष्टिसे आच्छादित करने लगे । इनको अपने भाईकी मृत्युके कारण बड़ा दुःख हुआ था, इसलिये इन्होंने बाणोंसे मारकर भीमसेनको प्रगति रोक दी । इन महारथियोंको चारों ओरसे बाण मारते देख भीमसेन क्रोधसे जल उठे, उनकी आंखें लाल हो गयीं और वे कोपमें भरे हुए कालके समान जान पड़ने लगे । उन्होंने भल्ल नामक दस बाण मारकर आपके दसों पुत्रोंको यमराजके घर भेज दिया ।

उनके मरते ही कौरवोंकी सेना भीमके डरसे भाग चली ; कर्ण देखता ही रह गया । महाराज ! प्रजाका नाश करने-वाले यमराजके समान भीमका वह पराक्रम देखकर कर्णके मनमें भी बड़ा भारी भय समा गया । राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतरका भाव समझ गये । तब उन्होंने कर्णसे यह समयोचित बात कही—‘राधानन्दन ! भय न करो । तुम्हारे-जैसे वीरको यह शोभा नहीं देता । ये राजालोग भीमके भयसे घबराकर भागे जा रहे हैं, दुर्योधन भी भाईकी मृत्युसे दुखी होकर किकर्तव्यविमूढ हो गया है । भीमसेन जब दुःशासनका रक्त पी रहे थे, तभीसे कृपाचार्य आदि वीर तथा मरनेसे बचे हुए कौरव दुर्योधनको चारों ओरसे घेरकर खड़े हैं । सभी शोकसे व्याकुल हैं, सबकी चेतना लुप्त-सी हो रही है । ऐसी अवस्थामें तुम पुरुषार्थका भरोसा रखो और क्षत्रियधर्मको सामने रखकर अर्जुनका मुकाबला करो । दुर्योधनने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रक्खा है । तुम अपने बल और शक्तिके अनुसार उसका वहन करो । यदि विजय हुई तो बहुत बड़ी कीर्ति फलेगी और पराजय होनेपर अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित है ।’

शल्यकी बात सुनकर कर्णने अपने हृदयमें युद्धके लिये आवश्यक भाव (उत्साह-अमर्ष आदिको) जगाया । इधर, महान् वीर नकुलने वृषसेनपर चढ़ाई की और रोपमें भरकर अपने शत्रुको बाणोंसे पीड़ित करना आरम्भ किया । उसने वृषसेनके धनुषको फाट डाला । तब कर्णके पुत्रने दूसरा धनुष लेकर नकुलको घायल कर दिया । वह अस्त्रविद्याका ज्ञाता था, इसलिये माद्रीकुमारपर दिव्यास्त्रोंकी वर्षा करने लगा । उगने उत्तम अस्त्रोंके प्रहारने नकुलके सफेद रंगवाले चारों

घोड़ोंको मार डाला । घोड़ोंके मारे जानेपर नकुल हाथोंमें ढाल-तलवार ले रथसे कूद पड़ा और उछलता-कूदता हुआ रणभूमिमें विचरने लगा । उसने बड़े-बड़े रथियों, घुड़सवारों और हाथीसवारोंको तलवारके घाट उतारा तथा अकेले ही दो हजार योद्धाओंका सफाया कर डाला । फिर वृषसेनको भी घायल किया और कितने ही पैदलों, घोड़ों तथा हाथियोंको मौतके मुखमें भेज दिया ।

तब कर्णके पुत्रने नकुलको अठारह बाणोंसे वींघकर उसके ऊपर तीखे सायकोंकी झड़ी लगा दी । नकुल भी उसके बाणोंकी वींघारको व्यर्थ करता हुआ और युद्धके अनेकों अद्भुत पँतरे दिखाता हुआ संग्रामभूमिमें विचरने लगा । इतनेहीमें वृषसेनने नकुलकी ढालके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । ढाल कट जानेपर उसने तलवारके हाथ दिखाने आरम्भ किये, किंतु कर्ण-पुत्रने छः बाणोंसे उसके भी खण्ड-खण्ड कर दिये । फिर तेज किये हुए सायकोंसे उसने नकुलकी छातीमें भी गहरी चोट पहुँचायी । इससे नकुलको बड़ी व्यथा हुई और वह सहसा छलाँग मारकर भीमसेनके रथपर जा बैठा । अब एक ही रथपर बैठे हुए उन दोनों महारथियोंको घायल करनेके लिये वृषसेन बाणोंकी वृष्टि करने लगा । उस समय वहाँ कौरवपक्षके दूसरे योद्धा भी आ पहुँचे और सब मिलकर उन दोनों भाइयोंपर बाण बरसाने लगे ।

इसी समय यह जानकर कि ‘नकुल वृषसेनके बाणोंसे पीड़ित है, उसकी तलवार तथा धनुष कट गये हैं और वह रथहीन हो चुका है ।’ द्रुपदके पाँचों पुत्र, सात्यकि तथा द्रौपदीके पाँचों पुत्र गरजते हुए वहाँ आ पहुँचे और अपने बाणोंसे आपकी सेनाके रथ, हाथी एवं घोड़ोंका संहार करने लगे । यह देख, आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, उलूक, वृक, फ्राथ और देवावृध आदिने बाण मारकर शत्रुओंके उन ग्यारह महारथियोंको आगे बढ़नेसे रोक दिया ।

तब नवीन मेघके समान काले और पर्वत-शिखरके समान ऊँचे एवं भयंकर वेगवाले हाथियोंके साथ कुलिनदोंकी सेनाने आपके महारथियोंपर धावा किया । कुलिनदराजके पुत्रने लोहेके दस बाण मारकर सारथि और घोड़ोंसहित कृपाचार्यको बहुत घायल किया, किंतु अन्तमें कृपाचार्यके सायकोंको मार खाकर वह हाथीसहित जमीनपर गिरा और मर गया । कुलिनदराजकुमारका छोटा भाई गान्धारराज

शकुनिते भिड़ा था, वह सूर्यकी किरणोंके समान चमकते हुए तोमरोसे गान्धारराजके रथकी ध्वजिजयी उड़ाकर बड़े जोरसे गर्जना करने लगा । इतनेहीमें शकुनिते उसका सिर काट लिया । कुलिनद्वाराकुमारके दूसरे छोटे भाईने आपके पुत्र दुर्षोधनकी छातीमें बहुत-से बाण मारे । तब दुर्षोधनने तीखे बाणोंसे उसको बाँधकर उसके हाथोंको भी छेद डाला । हाथी अपने शरीरसे रक्तकी धारा बहाता हुआ धरतीपर गिर पड़ा । अब कुलिनद्वाराके दूसरा हाथी आगे बढ़ाया, उसने सारथि तथा घोड़ोंसहित श्रायके रथको कुचल डाला । किन्तु घोड़ी ही देरमें श्रायके द्वारा चलाये हुए बाणोंसे विदीर्ण होकर वह हाथी भी सवारसहित धराप्रायी हो गया ।

इसके बाद हाथीपर ही बँडे हुए एक पर्वतीय राजाने श्रायराजपर आक्रमण किया । उसने अपने बाणोंसे श्रायके घोड़े, सारथि, ध्वजा तथा धनुषको नष्ट करके उसे भी मार गिराया । तब यकने उस पहलूई राजाको बारह बाण मारकर अत्यन्त घायल कर दिया । चोट खाकर राजाका वह विशाल गजराज बृकपर झपटा और अपने चारों चरणोंसे उसने रथ और घोड़ोंसहित बृकका कच्चा निकाल डाला । अन्तमें देवावृध-कुमारके बाणोंसे आहत होकर राजासहित वह गजराज भी कालका प्राप्त बन गया । इधर, देवावृध-कुमार भी सहदेव-पुत्रके बाणोंसे पीड़ित होकर गिरा और मर गया । इसके बाद दूसरा कुलिनद्वारा हाथीपर सवार हो शकुनिको मारनेके लिये आगे बढ़ा और उसे बाणोंसे पीड़ित करने लगा । यह देख गान्धारराजने उसका भी सिर काट लिया । दूसरी ओर, नकुल-पुत्र शतानीक आपके सेनाके बड़े-बड़े गजराजों, घोड़ों, रथियों और पैदलोंका संहार करने लगा । उस समय कलिङ्गराजके एक दूसरे पुत्रने उसका सामना किया । उसने हँसते-हँसते बहुत-से तीखे बाण मारकर शतानीकको घायल कर दिया । तब शतानीकने श्रोधमें भरकर शुराकार बाणसे कलिङ्गराजकुमारका मस्तक काट डाला ।

इसी बीचमे कर्णकुमार वृषसेनने शतानीकपर आक्रमण किया । उसने नकुल-पुत्रको तीन बाणोंसे घायल करके अर्जुनको तीन, भीमसेनको तीन, नकुलको सात और श्रीकृष्णको बारह बाणोंसे बाँध डाला । उसका यह अलौकिक पराक्रम देख समस्त कौरव हर्षमें भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे । अर्जुनने देखा कि कर्णपुत्रद्वारा नकुलके घोड़े मार डाले गये हैं और उसने श्रीकृष्णको भी बहुत घायल कर दिया है, तो वे कर्णके सामने खड़े हुए उसके पुत्रकी ओर दौड़े । उन्हें आक्रमण करते देख कर्णकुमारने अर्जुनको एक बाणसे आहत करके बड़े जोरसे गर्जना की । फिर उनकी बाणों भुजाके मूलभागमें उसने कई भयंकर बाण मारे । इतना ही नहीं,

उसने पुनः धीकृष्णको नी और अर्जुनको दस बाणोंसे बाँध डाला ।

अब अर्जुनको कुछ-कुछ शोक हुआ और उन्होंने मन-ही-मन वृषसेनको मार डालनेका निश्चय किया । बढ़ते हुए श्रोधके कारण उनके भाँहोंमें तीन जगह बल पड़ गया, अर्थात् ताल हो गयीं । उस समय मूसकराते हुए वे कर्ण, दुर्षोधन और अश्वत्थामा आदि सभी महारथियोंसे कहने लगे— 'कर्ण ! मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था, ऐसी दशामें तुम राय लोगोंने मिलकर उसका वध किया—इस कामको राय लोग सोटा बताने हैं । किन्तु आज मैं तुम लोगोंके सामने ही तुम्हारे पुत्र वृषसेनका वध करूँगा । रथियो ! तुम सब मिलकर भी उसे बचा सको तो बचाओ । कर्ण ! वृषसेनका वध करनेके परचातु तुम्हें भी मार डालूँगा । सारे ऋगड़ेकी जड़ तुम्हीं हो, दुर्षोधनका आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, इसलिये आज मैं जबरदस्ती तुम्हारा वध करूँगा और दुर्षोधनका वध भीमसेनके हाथसे होगा ।'

ऐसा कहकर अर्जुनने धनुषकी टंकार की और वृषसेनपर निशाना साधकर ठीक किया, फिर तुरंत ही उसके वधके उद्देश्यसे दस बाण छोड़े । उनसे वृषसेनके मर्मस्थानोंमें चोट पहुँची । इसके बाद अर्जुनने कर्णकुमारका धनुष और उसको दोनों भुजाएँ काट डालीं । फिर चार धुरोंसे उसका



मस्तक उड़ा दिया । मस्तक और भुजाएँ कट जानेपर वृषसेन रथसे लड़कर जमीनपर जा पड़ा । पुत्रके वधसे कर्णको वड़ा दुःख हुआ, वह रथमें भरकर सहसा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ओर दौड़ा ।

महाराज ! उस समय कर्णको आते देख भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे हँसकर कहा—'धनञ्जय ! आज तुम्हें जिसके साथ लोहा लेना है, वह महारथी कर्ण आ रहा है, अब सँनल जाओ । देखो, वह है उसका रथ; उसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं । रथके स्थानपर स्वयं राधानन्दन कर्ण विराजमान है । रथपर भाँति-भाँतिकी पताकाएँ फहराती हैं तथा उसमें छोटी-छोटी बहुत-सी घंटियाँ शोभा पा रही हैं । जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसमें सर्पका चिह्न बना हुआ है । कर्ण वाणोंकी वीछार करता हुआ वड़ा आ रहा है । उसे देखकर ये पाञ्चाल-महारथी भयके मारे अपनी सेनाके साथ भागे जा रहे हैं । इसलिये कुन्तीनन्दन ! तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगाकर सूतपुत्रका वध करना चाहिये । रणमें तुम देवता, असुर, गन्धर्व तथा स्यावर-जंगमरूप तीनों लोकोंको जीतनेमें समर्थ हो । इस बातको मैं जानता हूँ । जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र एवं भयंकर है, जिनकी तीन आँखें हैं, जो मस्तकपर जटाजूट धारण करते हैं, उन भगवान् महादेव-जीको दूसरे लोग देख भी नहीं सकते, फिर उनके साथ युद्ध करनेकी तो बात ही कहाँ है ? परंतु तुमने सम्पूर्ण जीवोंका कल्याण करनेवाले उन्हीं भगवान् शिवकी युद्धके द्वारा आराधना की है । देवताओंने भी तुम्हें वरदान दिये हैं । इसलिये तुम त्रिशूलधारी देवदेव भगवान् शंकरकी कृपासे कर्णका उसी प्रकार वध करो, जैसे इन्द्रने नमुचिका किया था । मैं आशीर्वाद देता हूँ—युद्धमें तुम्हारी विजय हो ।'

अर्जुन बोले—मधुसूदन ! सम्पूर्ण लोकोंके गुरु, आप मुझपर प्रसन्न हैं, तो मेरी विजय निश्चित है; इसमें तनिकभी संदेहके लिये गुंजावश नहीं है । हृषीकेश ! घोड़े हाँककर



रथको कर्णके पास ले चलिये । अब अर्जुन कर्णको मारे बिना पीछे नहीं लौट सकता । आज आप मेरे वाणोंसे टुकड़े-टुकड़े हुए कर्णको देखिये, या मुझे ही कर्णके वाणोंसे मरा हुआ देखियेगा । आज तीनों लोकोंको मोहमें डालनेवाला यह भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है । जबतक पृथ्वी कायम रहेगी, तबतक संसारके लोग इस युद्धकी चर्चा करेंगे ।

भगवान् श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर अर्जुन बड़ी शीघ्रतासे आगे बढ़े । वे चलते-चलते कहने लगे—'हृषीकेश ! घोड़ोंको तेज चलाइये, कर्णसे लड़नेका समय बीता जा रहा है ।' अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान्ने विजयका वरदान दे उनका सत्कार किया और घोड़ोंको हाँका । एक ही क्षणमें अर्जुनका रथ कर्णके सामने जाकर खड़ा हो गया ।

इन्द्रादि देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्मा और शिवजीका अर्जुनकी विजय घोषित करना तथा कर्णका शल्यसे और अर्जुनका श्रीकृष्णसे वार्तालाप

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! उधर जब कर्णने देखा कि वृषसेन मारा गया तो उसे बड़ा दुःख हुआ; वह दोनों नेत्रोंसे आंसू वहाने लगा । फिर क्रोधसे लाल आँखें किये, कर्ण अर्जुनको युद्धके लिये ललकारता हुआ आगे बढ़ा । उस समय त्रिभुवनपर विजय पानेके लिये उद्यत हुए इन्द्र और

वलिकी भाँति उन दोनों दैत्योंको एक-दूसरेसे भिड़नेके लिये तैयार देख सम्पूर्ण प्राणियोंको आश्चर्य होने लगा । कौरव और पाण्डव दोनों दलोंके लोग शङ्क और भेरी बजाने लगे । शूरवीर अपनी भुजाएँ ठोंकने और सिंहनाद करने लगे । उन सबकी तुमुल आवाज चारों ओर गूँजने लगी ।

वे दोनों वीर जब एक-दूसरेका सामना करनेके लिये दौड़े, उस समय यमराज और कालके समान प्रतीत होते थे



यह प्रश्न सुनकर इन्द्रने देवाधिदेव पितामहको प्रणाम किया और कहा—'भगवन् ! आप पहले बता चुके हैं कि श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ही विजय निश्चित है। आपकी वह बात सच्ची होनी चाहिये। प्रभो ! मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ, भूमपर प्रसन्न होइये।'

इन्द्रकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा और शंकरजीने कहा— 'देवराज ! महात्मा अर्जुनकी ही विजय निश्चित है। उन्होंने खाण्डववनमें अग्निदेवकी तृप्त किया है, स्वर्गमें आकर तुम्हें भी सहायता पहुँचायी है। अर्जुन सत्य और धर्ममें अटल रहनेवाले हैं; इसलिये उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें



तथा इन्द्र एवं वृषासुरके समान क्रोधमें भरे हुए थे। वे रूप और बलमें देवताओंके तुल्य थे, उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य और चन्द्रमा दंबेच्छासे एकत्र हो गये हों। दोनों महाबली युद्धके लिये नाना प्रकारके शस्त्र धारण किये हुए थे। उन्हें आमने-सामने खड़े देख आपके योद्धाओंको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन दोनोंमें किसकी विजय होगी, इस विषयमें सब लोगोंको संदेह होने लगा।

महाराज ! कर्ण और अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये देवता, दानव, गन्धर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, वेददेवता महर्षि, धाद्राद्र-भोजी पितर तथा तप, विद्या एवं ओषधियोंके अधिष्ठाता देवता नाना प्रकारके रूप धारण किये अन्तरिक्षमें खड़े थे। वहाँ उनका कोलाहल सुनायी पड़ता था। ब्रह्मर्षियों और प्रजापतियोंके साथ ब्रह्माजी तथा भगवान् शंकर भी दिव्य विमानोंमें बैठकर वहाँ युद्ध देखने आये थे। देवताओंने ब्रह्माजीसे पूछा—'भगवन् ! कौरव और पाण्डवपक्षके इन दो प्रधान वीरोंमें कौन विजयी होगा ? देव ! हम तो चाहते हैं—इनकी एक-सी ही विजय हो। कर्ण और अर्जुनके विवादासे सारा संसार संदेहमें पड़ा हुआ है। प्रभो ! आप सच्ची बात बताइये, इनमेंसे किसकी विजय होगी ?'

तनिक भी संदेह नहीं है। संसारके स्वामी साक्षात् भगवान् नारायणने उनका सारथि होना स्वीकार किया है; वे मनस्वी बलवान्, शूरवीर, अस्त्रविद्याके ज्ञाता और तपस्याके धनी हैं। उन्होंने धनुर्वेदका पूर्ण अध्ययन किया है। इस प्रकार अर्जुन विजय विलानेवाले सम्पूर्ण सद्गुणोंसे युक्त हैं; इसके अलावे, उनकी विजय देवताओका ही तो कार्य है। अर्जुन मनुष्योंमें श्रेष्ठ एवं तपस्वी हैं। वे अपनी महिमासे देवके विद्यानकी भी उलट सकते हैं; यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही सम्पूर्ण लोकोँका अन्त हो जायगा। श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके श्रेष्ठ करनेपर यह संसार कहीं नहीं टिक सकता। ये ही दोनों संसारकी सृष्टि करते हैं। ये ही प्राचीन ऋषि नर और नारायण हैं। इनपर किसीका शासन नहीं चलता और

ये सबकी अपने-अपने स्थिति हैं। वेबकोय या अनुभवयोगमें इन दोनोंकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है। वेबकोय शक्ति और बराबरीका यह से दोनोंको एक ही समूहमें मूल जानी मात्र विवेकबल ही इनके नाममें है; इनकी ही गतिमें यह जोर अपने-अपने कर्मोंमें प्रकृत हो रहे हैं। अतः विचार भी श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ही होगा। कर्म बसुओं अपना-अपना मोक्षमें जायगा।

बहुत और गौरवकी लेना अर्जुनर इनके नाममें प्रथितोंके द्वाराकर उनकी आज्ञा सुनयो। वे बोले— हमारे पुत्र अनुकूलि मंगलके हितके लिये जो कुछ कहा है, उसे तुममेंसे ही सुना ही होगा। वह ही ही होगा, उसके विचारमें हीना सम्भव है; अन्य सब निश्चित हो जाये। अर्जुनकी बात सुनकर समस्त आर्यो विस्मित हो गये और हरिमें भयकर श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए अन्तर आश्चर्य व्यक्तकी बर्षा करते गये। वेबकोय कहे तरहके विषय बताने बताने लगे।

मन्त्राचार्य श्रीकृष्ण और अर्जुनके तथा गन्ध और अर्जुनके अन्तःकरण अपने-अपने गूढ़ बतये। उस समय उन दोनोंमें आर्योके अन्तःकरण बहुत आरम्भ हुआ। दोनोंके रथोंमें निरन्तर अर्जुन और गौतम न ग रही थीं। कर्मोंके अन्तःकरण उठा गन्धका बना हुआ था, अन्तर हाथीकी मौलिकता सिद्ध था। अर्जुनकी अन्तःकरण एक श्रेष्ठ आर्य उठा था, जो अन्तरात्मीक मनन में बसे रहता था। वह अपनी अर्जुनके सबको इरादा जाना था, अपनी और वेबकोय भी जानता था।


मन्त्राचार्य श्रीकृष्णने गन्धकी और अर्जुनकी रथोंके अन्तःकरण, अपनी अपने-अपने अन्तःकरणोंमें बोल रहे हैं। गन्धने भी

अन्तःकरण और अर्जुनकी वृत्ति जानी। किन्तु इसमें विचार श्रीकृष्णकी ही हुई, गन्धकी बसके भय गयी। इसी प्रकार अन्तःकरण अन्तःकरणों की वृत्तिद्वारा कर्मोंके परात्म किया।

तबतन्त्राचार्य गन्धने हँसकर बोला— गन्ध ! यदि कदाचित् इस संज्ञामें अर्जुन तुम्हें मार डालें तो तुम क्या करोगे ? सब बतला ! गन्धने कहा— कर्म ! यदि वे आज तुम्हें मार डालें तो मैं श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दोनोंकी ही नीतिके धार बनानेवाला।

इसी तरह अर्जुनने भी श्रीकृष्णसे पूछा; तब वे हँसकर बहने लगे— पाप ! क्या यह भी सब हो सकता है ? कदाचित् मुझे अपने स्वयंसे गिर जाय, समूह गूढ़ जाय और आज अपना अन्तःकरण उठाकर गौतमता स्वीकार कर ले— मेरी बातें सम्भव हो जायें; किन्तु कर्म तुम्हें मार डाले, यह कदापि सम्भव नहीं है। यदि किसी तरह ऐसा हो जाय तो प्रसार उलट जायगा। मैं अपनी मृत्प्राप्तिके ही कर्म तथा गन्धकी समझ डालूंगा।

मन्त्राचार्यकी बात सुनकर अर्जुन हँस गये और बोले— अन्तःकरण ! ये गन्ध और कर्म तो मेरे ही लिये जानी नहीं हैं; आज आज देखियेगा मैं उग्र, कवच, गन्धि, धनुष, बाण, रथ, घोड़े तथा राजा गन्धके सहित कर्मोंके अपने-अपने धुक्के-धुक्के कर डालूंगा। आज मन्त्राचार्यकी शिष्यके विषय होनेका समय आ गया है। वे अन्तःकरण विषय बनेंगे। इस अर्जुनकी मूर्खने अन्तःकरणोंके अन्तःकरण आयी देल दारद्वार अन्तर अन्तर किया और हृत्प्राप्तिके भी विस्मित उड़ायी थीं। अतः आज इसकी अवश्य ही राह डालूंगा।



अन्तःकरणका धुक्के-धुक्के लिये प्रस्ताव, धुक्के-धुक्केद्वारा उसकी अस्वीकृति तथा कर्म और अर्जुनके धुक्के-धुक्के में भीम और श्रीकृष्णका अर्जुनको उत्तेजित करता

अन्तःकरण कहते हैं— गन्ध ! तबतन्त्राचार्य धुक्के-धुक्के, धुक्के-धुक्के, धुक्के-धुक्के और कर्म— ये अन्तःकरण श्रीकृष्ण और अर्जुनके अन्तःकरणोंके अन्तःकरण प्रस्ताव करते गये। यह वेब अन्तःकरणोंके अन्तःकरण, बाण, गन्ध, घोड़े, हाथी, रथ और मन्त्राचार्य अर्जुनके अन्तःकरणोंके मूल कर गया; साथ ही उन गन्धोंका मान-मनन कर्के धुक्के-धुक्के कर्मोंके बाह्य बाणोंका निरन्तर बतला। अन्तःकरणोंमें कर्मोंके मूल गये, मन्त्राचार्य हाथीके अन्तःकरण, धनुष, बाण तथा अन्तःकरणोंके अन्तःकरण अर्जुनको मार जानेकी

अन्तःकरणोंके अन्तःकरण; परन्तु अर्जुनने अपने बाणों तथा कूर्मोंकी मारसे उन सबके अन्तःकरण अन्तःकरणों तथा अन्तःकरणोंके मूल निरन्तर। उनके घोड़ों, हाथियों और रथोंके भी काट डाला। यह वेब अन्तःकरणोंके अन्तःकरणोंके धुक्के-धुक्के मूल उठी, मनी अर्जुनके अन्तःकरणोंके अन्तःकरणोंके मूल गये; साथ ही कर्मोंके धुक्के-धुक्के मूल भी होने लगे। उस समय अन्तःकरण अन्तःकरणका धुक्के-धुक्के मूल गये और अन्तःकरण हाथ अन्तःकरणोंके अन्तःकरणोंके मूल हुआ बोला— धुक्के-धुक्के ! अब प्रस्ताव होकर अन्तःकरणोंके मूल कर गये; अन्तःकरणोंके कोई जान नहीं है।




आपसके इस मगड़के धिक्कार है। तुम्हारे गुरुदेव अस्व-विद्याके महान् पण्डित थे, किंतु इस युद्धमें मारे गये। यही दशा भीष्म आदि महारथियोंको भी हुई। मैं और मामा कृपाचार्य तो अवध रहूँ, इसलिये अबतक बचे हुए हैं। अतः अब तुम पाण्डवोंसे मिलकर चिरकालतक राज्य-शासन करो। मेरे मना करनेसे अर्जुन शांत हो जायेंगे। श्रीकृष्ण भी विरोध नहीं चाहते। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियोंके हितमें ही लगे रहते हैं, अतः वे भी मान लेंगे। बाकी रहे भीमसेन और नकुल-सहदेव; सो ये भी धर्मराजके अधीन हैं, उनकी इच्छाके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ पाण्डवोंकी संधि हो जानेपर सारी प्रजाका कल्याण होगा। फिर तुम्हारी अनुमति लेकर ये राजालोग भी अपने-अपने देशको लौट जायें और समस्त सैनिकोंको युद्धसे छुटकारा मिल जाय। राजन् ! यदि मेरी यह बात नहीं सुनीये तो निश्चय ही शत्रुओंके हाथसे मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बहुत पश्चात्ताप होगा। आज तुमने और सारे संसारने यह देख लिया कि अकेले अर्जुनने जो पराक्रम किया है उसे इन्द्र, यमराज, वरुण और कुबेर भी नहीं कर सकते। अर्जुन गुणोंमें मनुष्यसे बढ़कर हैं, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी बात नहीं टालेंगे। यही नहीं, ये हृदा तुम्हारे अनुकूल बर्ताव भी करेंगे। इसलिये राजन् ! तुम प्रसन्नतापूर्वक संधि कर लो। अपनी घनिष्ठ मित्रताके कारण ही मैं तुमसे

यह प्रस्ताव कर रहा हूँ। जब तुम इसे प्रेमपूर्वक स्वीकार कर लोगे तो मैं कर्णको भी युद्धसे रोक दूंगा। विद्वान्लोग चार प्रकारके मित्र बतलाते हैं। एक सहज मित्र होते हैं, जिनकी भंत्री न्यायभाविक होती है। दूसरे हैं संधि करके बनाये हुए मित्र। तीसरे वे हैं, जो धन देकर अपनाये गये हैं। कितोका प्रबल प्रताप देखकर जो स्वतः चरणोंके निकट आ जाते हैं—शरणागत हो जाते हैं, वे चौथे प्रकारके मित्र हैं। पाण्डवोंके साथ तुम्हारी तभी प्रकारकी मित्रता सम्भव है। बीरवर ! यदि तुम प्रसन्नतापूर्वक पाण्डवोंसे मित्रता स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा संसारका बहुत बड़ा कल्याण होगा।

इस प्रकार जब अश्वत्थामाने दुर्घोषनसे हितकी बात कही तो उसने मन-ही-मन खिन्न होकर कहा—'मित्र ! तुम जो कुछ कहते हो, वह सब ठीक है; किंतु इसके सम्बन्धमें कुछ मेरी बात भी सुन लो। इस दुर्बद्ध भीमसेनने दुःशासन-को मार डालनेके पश्चात् जो बात कही थी, यह अब भी मेरे हृदयसे दूर नहीं होती। ऐसी दशामें कैसे शान्ति मिले ? क्योंकर संधिहो ? गुरुपुत्र ! इस समय तुम्हें कर्णसे युद्ध बंद कर देनेकी बात भी नहीं कहनी चाहिये; क्योंकि अर्जुन बहुत धक गये हैं, अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा।'

अश्वत्थामाने यों कहकर दुर्घोषनने अनुनय-विनयके द्वारा उसे प्रसन्न कर लिया, फिर अपने सैनिकोंसे कहा—



ये सबको अपने शासनमें रखते हैं। देवलोक या मनुष्यलोकमें इन दोनोंकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है। देवता, ऋषि और चारणोंके साथ ये तीनों लोक एवं सम्पूर्ण भूत यानी सारा विश्वब्रह्माण्ड ही इनके शासनमें है; इनकी ही शक्तिसे सब लोग अपने-अपने कर्मोंमें प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः विजय तो श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ही होगी। कर्ण वसुओं अथवा मरुतोंके लोकमें जायगा।'

ब्रह्मा और शंकरजीके ऐसा कहनेपर इन्द्रने सम्पूर्ण प्राणियोंको बुलाकर उनकी आज्ञा सुनायी। वे बोले— 'हमारे पुज्य प्रभुओंने संसारके हितके लिये जो कुछ कहा है, उसे तुमलोगोंने सुना ही होगा। वह वंसे ही होगा, उसके विपरीत होना असम्भव है; अतः अब निश्चित हो जाओ।' इन्द्रकी बात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गये और हृदयमें भरकर श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए उनपर सुगन्धित फूलोंकी वर्षा करने लगे। देवतालोग कई तरहके दिव्य वाजे बजाने लगे।

तत्पश्चात् श्रीकृष्ण और अर्जुनने तथा शल्य और कर्णने अलग-अलग अपने-अपने शङ्ख बजाये। उस समय उन दोनोंमें कायरोंको डरानेवाला युद्ध आरम्भ हुआ। दोनोंके रथोंपर निर्मल ध्वजाएँ शोभा पा रही थीं। कर्णकी ध्वजाका डंडा रत्नका बना हुआ था, उसपर हाथीकी साँकलका चिह्न था। अर्जुनकी ध्वजापर एक श्रेष्ठ वानर बैठ था, जो यमराजके समान मुँह चाये रहता था। वह अपनी डाढ़ोंसे सबको डराया करता था, उसकी ओर देखना भी कठिन था।

भगवान् श्रीकृष्णने शल्यकी ओर आँखोंकी त्योरी करके देखा, मानो उसे नेत्ररूपी वाणोंसे घोंघ रहे हों। शल्यने भी

उनकी ओर उसी तरहकी दृष्टि डाली। किंतु इसमें विजय श्रीकृष्णकी ही हुई, शल्यकी पलकें झँप गयीं। इसी प्रकार कुन्तीनन्दन धनञ्जयने भी दृष्टिद्वारा कर्णको परास्त किया।

तदनन्तर कर्ण शल्यसे हँसकर बोला—'शल्य ! यदि कदाचित् इस संग्राममें अर्जुन मुझे मार डालें तो तुम क्या करोगे ? सच बताना।' शल्यने कहा—'कर्ण ! यदि वे आज तुझे मार डालेंगे तो मैं श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दोनोंको ही मौतके घाट उतारूँगा।'

इसी तरह अर्जुनने भी श्रीकृष्णसे पूछा; तब वे हँसकर कहने लगे—'पार्थ ! क्या यह भी सच हो सकता है ? कदाचित् सूर्य अपने स्थानसे गिर जाय, समुद्र सूख जाय और आग अपना उष्ण-स्वभाव छोड़कर शीतलता स्वीकार कर ले—ये सभी बातें सम्भव हो जायें; किंतु कर्ण तुम्हें मार डाले, यह कदापि सम्भव नहीं है। यदि किसी तरह ऐसा हो जाय तो संसार उलट जायगा। मैं अपनी भुजाओंसे ही कर्ण तथा शल्यको मसल डालूँगा।'

भगवान्को बात सुनकर अर्जुन हँस पड़े और बोले— 'जनादेन ! ये शल्य और कर्ण तो मेरे ही लिये काफी नहीं हैं; आज आप देखियेगा मैं छत्र, कवच, शक्ति, धनुष, बाण, रथ, घोड़े तथा राजा शल्यके सहित कर्णको अपने वाणोंसे टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा। आज सूतपुत्रकी स्त्रियोंके विधवा होनेका समय आ गया है। वे अवश्य विधवा बनेंगी। इस अदूरदर्शी मूखने द्रौपदीको सभामें आयी देख बारंबार उसपर आक्षेप किया और हमलोगोंकी भी खिल्लियाँ उड़ायी थीं। अतः आज इसको अवश्य ही रौंद डालूँगा।'

अश्वत्थामाका दुर्योधनसे संधिके लिये प्रस्ताव, दुर्योधनद्वारा उसकी अस्वीकृति तथा कर्ण और अर्जुनके युद्धमें भीम और श्रीकृष्णका अर्जुनको उत्तेजित करना

'सञ्जय कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनि, कृपाचार्य और कर्ण—ये पाँच महारथी श्रीकृष्ण और अर्जुनपर प्राणान्तकारी वाणोंका प्रहार करने लगे। यह देख धनञ्जयने उनके धनुष, बाण, तरकस, घोड़े, हाथी, रथ और सारथि आदिको अपने वाणोंसे नष्ट कर डाला; साथ ही उन शत्रुओंका मान-मर्दन करके सूतपुत्र कर्णको बारह वाणोंका निशाना बनाया। इतनेहीमें वहाँ सँकड़ों रथी, सँकड़ों हाथीसवार और शक, तुपार, यवन तथा काम्बोज देशके बहुतेरे घुड़सवार अर्जुनको मार डालनेकी

इच्छासे दौड़े आये; परंतु अर्जुनने अपने वाणों तथा क्षुरोंकी मारसे उन सबके उत्तम-उत्तम अस्त्रों तथा मस्तकोंको काट गिराया। उनके घोड़ों, हाथियों और रथोंको भी काट डाला।

यह देख आकाशमें देवताओंकी दुन्दुभी वज उठी, सभी अर्जुनको साधुवाद देने लगे; साथ ही वहाँ फूलोंकी वर्षा भी होने लगी। उस समय द्रोणकुमार अश्वत्थामा दुर्योधनके पास गया और उसका हाथ अपने हाथमें लेकर सान्त्वना देता हुआ बोला—'दुर्योधन ! अब प्रसन्न होकर पाण्डवोंसे संधि कर लो; विरोधसे कोई लाभ नहीं है।

कर्ण और अर्जुनका युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! भीमसेन तथा श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर अर्जुनने सूतपुत्रके वधका विचार किया। साथ ही, भूमिपर आनेके प्रयोजनपर ध्यान देकर उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा—‘भगवन् ! अब मैं संसारका कल्याण और मूलपुत्रका वध करनेके लिये महान् भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ ! इसके लिये आप, ब्रह्माजी, शंकरजी, सप्तस्त देवता तथा सम्पूर्ण ब्रह्मवेत्ता मुझे आज्ञा दें ।’ भगवान्से ऐसा कहकर सध्यसाधने ब्रह्माजीकी नमस्कार किया और जिसका मन-ही-मन प्रयोग होता है, उस ब्रह्मास्त्रको प्रकट किया। परंतु कर्णने अपने बाणोंकी बौछारसे उस अस्त्रको नष्ट कर डाला।

यह देख भीमसेन क्रोधसे तमतमा उठे, उन्होंने सत्य-प्रतिज्ञ अर्जुनसे कहा—‘सध्यसाचिन् ! सब लोग जानते हैं कि तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्रके ज्ञाता हो, इसलिये अब और किसी अस्त्रका संघान करो !’ यह सुनकर अर्जुनने दूसरे अस्त्रको धनुषपर रखवा; फिर तो उससे प्रज्वलित बाणोंकी वर्षा होने लगी, जिससे चारों दिशाएँ आच्छादित हो गयीं। कोना-कोना मर गया। केवल बाण ही नहीं; उससे भयंकर विगल, करते, चक्र और नाराच आदि अस्त्र भी संकड़ोंकी संख्यामें निकलकर सब ओर खड़े हुए योद्धाओंके प्राण लेने लगे। किसीका सिर कटकर गिरा तो कोई घों ही भयके मारे गिर पड़ा, कोई दूसरेको गिरता देख स्वयं वहाँसे चंपत हो गया। किसीको दाहिनी बाँह कटती तो किसीकी बायीं। इस प्रकार किरौटधारी अर्जुनने शत्रुपक्षके भूष्य-भूष्य योद्धाओंका संहार कर डाला।

दूसरी ओरसे कर्णने भी अर्जुनपर हजारों बाणोंकी वर्षा की। फिर भीमसेन, श्रीकृष्ण और अर्जुनको तीन-तीन बाणोंसे बाँधकर उसने बड़े जोरसे गर्जना की। तब अर्जुनने पुनः अठारह बाण चलाये; उनमेंसे एक बाणके द्वारा उन्होंने कर्णकी ध्वजा छेद डाली, चार बाणोंसे राजा शल्यको और तीनसे कर्णको घायल किया, शेष दस बाणोंका प्रहार राज-कुमार समापतिपर हुआ। दो बाणोंसे राजकुमारके ध्वजा और धनुष कट गये, पाँचसे, घोड़े और सारथि मारे गये, फिर दोसे उनकी दोनों भुजाएँ कटों और एकसे मस्तक जड़ा दिया गया। इस प्रकार मृत्युको प्राप्त होकर वह राजकुमार रथसे नीचे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुनने पुनः तीन, आठ, दो, चार और दस बाणोंसे कर्णको बाँध डाला। फिर अस्त्र-शस्त्रोंसहित चार सौ हाथीसवारों, आठ सौ रथियों, एक

हजार घुड़सवारों तथा आठ हजार पंदल सिपाहियोंको मौतके घाट उतार दिया। यही नहीं, उन्होंने बाणोंसे कर्णको उसके सारथि, रथ, घोड़े और ध्वजासहित ढक दिया; अब वह दिखायो नहीं पड़ता था। तदनन्तर, उन्होंने कौरवोंको अपने बाणोंका निशाना बनाया। उनकी मार खाकर कौरव चिल्लाते हुए कर्णके पास आये और कहते लगे—‘कर्ण ! तुम शोग्र ही बाणोंकी वर्षा करके पाण्डुपुत्र अर्जुनको मार डालो ! नहीं तो यह पहले कौरवोंको ही समाप्त कर देना चाहता है !’

उनकी प्रेरणासे कर्णने पूरी शक्ति लगाकर लगातार बहुत-से बाणोंकी वर्षा की, इससे पाण्डव और पाण्डवाल सैनिकोंका नाश होने लगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र-विद्याके ज्ञाता थे, इसलिये बड़े-बड़े अस्त्रोंका प्रयोग करते थे अपने-अपने शत्रुओंकी सेनाका संहार करने लगे। इतनेहीमें राजा मुद्घिष्ठिर मन्त्र तथा ओद्योगियोंके बलसे पूर्ण स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये यहाँ आये। हितैषी बंधोंने उनके शरीर से बाण निकालकर घाव अच्छा कर दिया था। धर्मराजको संग्राम-भूमिमें उपस्थित देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई।

उस समय सूतपुत्र कर्णने अर्जुनको क्षुद्रक नामवाले सौ बाण मारे, फिर श्रीकृष्णको साठ बाणोंसे बाँधकर अर्जुनको भी आठ बाणोंसे घायल किया। साथ ही, भीमसेनपर भी उसने हजारों बाणोंका प्रहार किया। तब पाण्डव और सोमक धीर कर्णको तेज किये हुए बाणोंसे आच्छादित करने लगे। किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओंको आगे बढ़नेसे रोक दिया और अपने अस्त्रोंसे उनके अस्त्रोंको नष्ट करके रथ, घोड़े तथा हाथियोंका भी संहार कर डाला। अब तो आपके योद्धा यह समझकर कि कर्णको विजय हो गयी, ताली पीटने और सिहनाद करने लगे।

इसी समय अर्जुनने हँसते-हँसते दस बाणोंसे राजा शल्यके कवचको बाँध डाला, फिर बारह तथा सात बाण मारकर कर्णको भी घायल कर दिया। कर्णके शरीरमें बहुत-से घाव हो गये, वह धूलसे लथपथ हो गया। तदनन्तर कर्णने भी अर्जुनको तीन बाण मारे और श्रीकृष्णको मारनेकी इच्छासे उसने पाँच बाण चलाये। वे बाण श्रीकृष्णके कवचको छेदकर पृथ्वीपर जा पड़े। यह देख अर्जुन क्रोधसे जल उठे, उन्होंने अनेकों दमकते हुए बाण मारकर कर्णके मर्मस्थानोंको बाँध डाला। इससे कर्णको बड़ी पीडा हुई, वह विचलित हो उठा; किंतु किसी तरह धंयं धारण कर रणभूमिमें डटा

'अरे ! तुमलोग हाथोंमें बाण लिये चुप क्यों बंठ गये ? शत्रुओंपर धावा करके उन्हें मार डालो।' इसी बीचमें इबेत घोड़ोंवाले कर्ण तथा अर्जुन युद्धके लिये आमने-सामने आकर डट गये । दोनोंने एक दूसरेपर महान् अस्त्रोंका प्रहार आरम्भ किया । दोनोंके ही सारथि और घोड़ोंके शरीर बाणोंसे विंध गये । खूनकी धारा बहने लगी । वे अपने बज्रके समान बाणोंसे इन्द्र और वृत्रासुरकी भाँति एक-दूसरेपर प्रहार कर रहे थे । उस समय हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंसे युक्त दोनों ओरकी सेनाएँ भयसे काँप रही थीं । इतनेहीमें कर्ण मतवाले हाथीकी भाँति अर्जुनको मारनेकी इच्छासे आगे बढ़ा । यह देख सोमकोंने चिल्लाकर कहा— 'अर्जुन ! अब विलम्ब करना व्यर्थ है । कर्ण सामने है, इसे छेद डालो; इसका मस्तक उड़ा दो।' इसी प्रकार हमारे पक्षके बहुतेरे योद्धा भी कर्णसे कहने लगे—'कर्ण ! जाओ, जाओ अपने तीखे बाणोंसे अर्जुनको मार डालो !'

तब पहले कर्णने दस बड़े-बड़े बाणोंसे अर्जुनको वींध दिया । फिर अर्जुनने भी तेज की हुई धारवाले दस सायकोंसे कर्णकी काँखमें हँसते-हँसते प्रहार किया । अब दोनों एक-दूसरेकी अपने-अपने बाणोंका निशाना बनाने लगे और हृष्यमें भरकर भयंकररूपसे आक्रमण करने लगे । अर्जुनने गाण्डीव धनुषकी प्रत्यञ्चा सुधारकर कर्णपर नाराच, नालीक, वराहकर्ण, क्षुर, अञ्जलिक और अर्धचन्द्र आदि बाणोंकी नड्डो लगा दी । किंतु अर्जुन जो-जो बाण उसपर छोड़ते थे, उसी-उसीको वह अपने सायकोंसे नष्ट कर डालता था । तदनन्तर उन्होंने आग्नेयास्त्रका प्रहार किया । इससे पृथ्वीसे लेकर आकाशतक आगकी ज्वाला फँल गयी । योद्धाओंके वस्त्र जलने लगे, वे रणसे भाग चले । जैसे जंगलके बीच बाँसका वन जलते समय जोर-जोरसे ज़टखनेकी आवाज करता है, उसी तरह आगकी लपटमें झुलसते हुए सैनिकोंका भयंकर आतंनाव होने लगा ।

आग्नेयास्त्रको बड़ते देख उसे शान्त करनेके लिये कर्णने वारुणास्त्रका प्रयोग किया । उससे वह आग बुझ गयी । उस समय मेघोंकी घटा घिर आयी और चारों दिशाओंमें अंधेरा छा गया । सब ओर पानी-ही-पानी नजर आने लगा । तब अर्जुनने वायव्यास्त्रसे कर्णके छोड़े हुए वारुणास्त्रको शान्त कर दिया; बादलोंकी वह घटा छिन्न-भिन्न हो गयी । तत्पश्चात् उन्होंने गाण्डीव धनुष, उसकी प्रत्यञ्चा तथा बाणोंको अभिमन्त्रित करके अत्यन्त प्रभावशाली ऐन्द्रास्त्र वज्रको प्रकट किया । उससे क्षुरप्र, अञ्जलिक, अर्धचन्द्र,

नालीक, नाराच और वराहकर्ण आदि तीखे अस्त्र हंजारोंकी संख्यामें छूटने लगे । उन अस्त्रोंसे कर्णके सारे अङ्ग, घोड़े, धनुष, दोनों पहिये और ध्वजाएँ विंध गयीं । उस समय कर्णका शरीर बाणोंसे आच्छादित होकर खूनसे लथपथ हो रहा था, क्रोधके मारे उसकी आँखें बदल गयीं । अतः उसने भी समुद्रके समान गर्जना करनेवाले भागंवास्त्रको प्रकट किया और अर्जुनके महेन्द्रास्त्रसे प्रकट हुए बाणोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । इस प्रकार अपने अस्त्रसे शत्रुके अस्त्रको दबाकर कर्णने पाण्डव-सेनाके रथी, हाथीसवार और पैदलोंका संहार आरम्भ किया । भागंवास्त्रके प्रभावसे जब वह पाञ्चालों और सोमकोंको भी पीड़ित करने लगा तो वे भी क्रोधमें भरकर उसपर टूट पड़े और चारों ओरसे तीखे बाण मारकर उसे वींधने लगे । किंतु सूतपुत्रने पाञ्चालोंके रथी, हाथीसवार और घुड़सवारोंके समुदायोंको अपने बाणोंसे विदीर्ण कर डाला; वे चीखते-चिल्लाते हुए प्राण त्यागकर धराशायी हो गये । उस समय आपके सैनिक कर्णकी विजय समझकर सिंहावाद करने और ताली पीटने लगे ।

यह देख भीमसेन क्रोधमें भरकर अर्जुनसे बोले— 'विजय ! धर्मकी अवहेलना करनेवाले इस पापी कर्णने आज तुम्हारे सामने ही पाञ्चालोंके प्रधान-प्रधान वीरोंको कैसे मार डाला ? तुम्हें तो कालिकेय नामक दानव भी नहीं परास्त कर सके, साक्षात् महादेवजीसे तुम्हारी हाथापाई हो चुकी है; फिर भी इस सूतपुत्रने तुम्हें पहले ही बाण मारकर कैसे वींध डाला ? तुम्हारे चलाये हुए बाणोंको इसने नष्ट कर दिया ! यह तो मुझे एक अचंभेकी बात मालूम हो रही है । अरे ! सभामें द्रौपदीको जो कष्ट दिये गये हैं, उनको याद करो ; इस पापीने निर्भय होकर जो हमलोगोंको नपुंसक कहा तथा तोखी और कठोर बातें सुनायीं, उन्हें भी स्मरण करो । इन सारी बातोंको ध्यानमें रखकर शीघ्र ही कर्णका नाश कर डालो ! तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो ? यह लापरवाहीका समय नहीं है !'

तदनन्तर श्रीकृष्णने भी अर्जुनसे कहा—'वीरवर ! यह क्या बात है ? तुमने जितने बार प्रहार किये, कर्णने प्रत्येक बार तुम्हारे अस्त्रको नष्ट कर दिया । आज तुमपर कैसा मोह छा रहा है ? ध्यान नहीं देते ? ये तुम्हारे शत्रु कौरव कितने हृष्यमें भरकर गरज रहे हैं ! जिस धैर्यसे तुमने प्रत्येक युगमें भयंकर राक्षसोंको मारा और दम्भोद्भूव नामक असुरोंका विनाश किया है, उसी धैर्यसे आज कर्णको भी नष्ट करो !'

कण और अर्जुनका युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! भीमसेन तथा श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर अर्जुनने सूतपुत्रके वचका विचार किया । साथ ही, भूमिपर आनेके प्रयोजनपर ध्यान देकर उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा—‘भगवन् ! अब मैं संसारका कल्याण और सूतपुत्रका वध करनेके लिये महान् भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ ! इसके लिये आप, ब्रह्माजी, शंकरजी, समस्त देवता तथा सम्पूर्ण ब्रह्मवेत्ता मुझे आज्ञा दें ।’ भगवान्से ऐसा कहकर सव्यसाचीने ब्रह्माजीको नमस्कार किया और जिसका मन-ही-मन प्रयोग होता है, उस ब्रह्मास्त्रको प्रकट किया । परंतु कर्णने अपने बाणोंकी बौद्धारसे उस अस्त्रको नष्ट कर डाला ।

यह देख भीमसेन क्रोधसे तमतमा उठे, उन्होंने सत्य-प्रतिज्ञ अर्जुनसे कहा—‘सव्यसाचिन् ! सब लोग जानते हैं कि तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्रके ज्ञाता हो, इसलिये अब और किसी अस्त्रका संधान करो ।’ यह सुनकर अर्जुनने दूसरे अस्त्रको धनुषपर खला; फिर तो उससे प्रज्वलित बाणोंकी वर्षा होने लगी, जिससे चारों दिशाएँ आच्छादित हो गयीं । कोना-कोना भर गया । केवल बाण ही नहीं; उससे भयंकर त्रिगूल, फरसे, चक्र और नाराच आदि अस्त्र भी संकड़ोंकी संख्यामें निकलकर सब ओर खड़े हुए योद्धाओंके प्राण लेने लगे । किसीका सिर कटकर गिरा तो कोई बाँ हो भयके मारे गिर पड़ा, कोई दूसरेको गिरता देख स्वयं वहाँसे चंपत हो गया । किसीकी दाहिनी बांह कटी तो किसीकी बायें । इस प्रकार किरौटधारी अर्जुनने शत्रुपक्षके मुख्य-मुख्य योद्धाओंका संहार कर डाला ।

दूसरी ओरसे कर्णने भी अर्जुनपर हजारों बाणोंकी वर्षा की । फिर भीमसेन, श्रीकृष्ण और अर्जुनको तीन-तीन बाणोंसे बौधकर उसने वड़े जोरसे गर्जना की । तब अर्जुनने पुनः अटारह बाण चलाये; उनमेंसे एक बाणके द्वारा उन्होंने कर्णकी ध्वजा छेद डाली, चार बाणोंसे राजा शल्यको और तीनसे कर्णको घायल किया, शेष दस बाणोंका प्रहार राज-कुमार समापतिपर हुआ । दो बाणोंसे राजकुमारके ध्वजा और धनुष कट गये, पाँचसे घोड़े और सारथि मारे गये, फिर दोसे उनकी दोनों भुजाएँ कटीं और एकसे मस्तक उड़ा दिया गया । इस प्रकार मृत्युको प्राप्त होकर वह राजकुमार रुपये नीचे गिर पड़ा । इसके बाद अर्जुनने पुनः तीन, आठ, दो, चार और दस बाणोंसे कर्णको बौध डाला । फिर अस्त्र-शस्त्रोसहित चार सौ हाथीसवारों, आठ सौ रथियों, एक

हजार घुड़सवारों तथा आठ हजार पैदल सिपाहियोंको मौतके घाट उतार दिया । यही नहीं, उन्होंने बाणोंसे कर्णको उसके सारथि, रथ, घोड़े और ध्वजासहित ढक दिया; अब वह दिखायी नहीं पड़ता था । तदनन्तर, उन्होंने कौरवोंको अपने बाणोंका निशाना बनाया । उनकी मार साकर कौरव चिल्लाते हुए कर्णके पास आये और कहने लगे—‘कर्ण ! तुम शीघ्र ही बाणोंकी वर्षा करके पाण्डुपुत्र अर्जुनको मार डालो । नहीं तो यह पहले कौरवोंको ही समाप्त कर देना चाहता है ।’

उनकी प्रेरणासे कर्णने पूरी शक्ति लगाकर लगातार बहुत-से बाणोंकी वर्षा की, इससे पाण्डव और पाण्डवाल सैनिकोंका नाश होने लगा । कर्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र-विद्याके ज्ञाता थे, इसलिये बड़े-बड़े अस्त्रोंका प्रयोग करके वे अपने-अपने शत्रुओंकी सेनाका संहार करने लगे । इतनेहीमें राजा युधिष्ठिर मन्त्र तथा ओषधियोंके बलसे पूर्ण स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये वहाँ आये । हितंषी घंटोने उनके शरीर से बाण निकालकर घाव अच्छा कर दिया था । धर्मराजको संग्राम-भूमिमें उपस्थित देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई ।

उस समय सूतपुत्र कर्णने अर्जुनको क्षुद्रक नामवाले सौ बाण मारे, फिर श्रीकृष्णको साठ बाणोंसे बौधकर अर्जुनको भी आठ बाणोंसे घायल किया । साथ ही, भीमसेनपर भी उसने हजारों बाणोंका प्रहार किया । तब पाण्डव और सोमक वीर कर्णको तेज किये हुए बाणोंसे आच्छादित करने लगे । किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओंको आगे बढ़नेसे रोक दिया और अपने अस्त्रोंसे उनके अस्त्रोंको नष्ट करके रथ, घोड़े तथा हाथियोंका भी संहार कर डाला । अब तो आपके योद्धा यह समझकर कि कर्णकी विजय ही गयी, ताली पीटने और सिंहावाद करने लगे ।

इसी समय अर्जुनने हँसते-हँसते दस बाणोंसे राजा शल्यके कवचको बौध डाला, फिर बारह तथा सात बाण मारकर कर्णको भी घायल कर दिया । कर्णके शरीरमें बहुत-से घाव हो गये, वह खूनसे लथपथ हो गया । तदनन्तर कर्णने भी अर्जुनको तीन बाण मारे और श्रीकृष्णको मारनेकी इच्छासे उसने पाँच बाण चलाये । वे बाण श्रीकृष्णके कवचको छेदकर पृथ्वीपर जा पड़े । यह देख अर्जुन प्रोद्यते जल उठे, उन्होंने अनेकों दमकते हुए बाण मारकर कर्णके मर्मस्थानोंको बौध डाला । इससे कर्णकी बड़ी पीड़ा हुई, वह विचलित हो उठा; किंतु कितने तरह धंय धारण कर रणभूमिमें डटा

‘अरे ! तुमलोग हाथोंमें बाण लिये चुप क्यों बैठ गये ? शत्रुओंपर धावा करके उन्हें मार डालो !’ इसी बीचमें श्वेत घोड़ोंवाले कर्ण तथा अर्जुन युद्धके लिये आमने-सामने आकर डट गये । दोनोंने एक दूसरेपर महान् अस्त्रोंका प्रहार आरम्भ किया । दोनोंके ही सारथि और घोड़ोंके शरीर बाणोंसे विध गये । खूनकी धारा बहने लगी । वे अपने वज्रके समान बाणोंसे इन्द्र और वृत्रासुरकी भाँति एक-दूसरेपर प्रहार कर रहे थे । उस समय हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंसे युक्त दोनों ओरकी सेनाएँ भयसे काँप रही थीं । इतनेहीमें कर्ण मतवाले हाथीकी भाँति अर्जुनको मारनेकी इच्छासे आगे बढ़ा । यह देख सोमकोंने चिल्लाकर कहा— ‘अर्जुन ! अब विलम्ब करना व्यर्थ है । कर्ण सामने है, इसे छेद डालो; इसका मस्तक उड़ा दो !’ इसी प्रकार हमारे पक्षके बहुतेरे योद्धा भी कर्णसे कहने लगे—‘कर्ण ! जाओ, जाओ अपने तीखे बाणोंसे अर्जुनको मार डालो !’

तब पहले कर्णने दस बड़े-बड़े बाणोंसे अर्जुनको वीध दिया । फिर अर्जुनने भी तेज की हुई धारवाले दस सायकोंसे कर्णकी काँखमें हँसते-हँसते प्रहार किया । अब दोनों एक-दूसरेको अपने-अपने बाणोंका निगाना बनाने लगे और हृष्यमें भरकर भयंकररूपसे आक्रमण करने लगे । अर्जुनने गाण्डीव धनुषकी प्रत्यञ्चा सुधारकर कर्णपर नाराच, नालीक, वराहकर्ण, क्षुर, अञ्जलिक और अर्धचन्द्र आदि बाणोंकी नड़ी लगा दी । किंतु अर्जुन जो-जो बाण उसपर छोड़ते थे, उसी-उसीको वह अपने सायकोंसे नष्ट कर डालता था । तदनन्तर उन्होंने आग्नेयास्त्रका प्रहार किया । इससे पृथ्वीसे लेकर आकाशतक आगकी ज्वाला फैल गयी । योद्धाओंके वस्त्र जलने लगे, वे रणसे भाग चले । जैसे जंगलके बीच बाँसका वन जलते समय जोर-जोरसे ज़टखनेकी आवाज करता है, उसी तरह आगकी लपटमें झूलसते हुए सैनिकोंका भयंकर आर्तनाद होने लगा ।

आग्नेयास्त्रको बढ़ते देख उसे शान्त करनेके लिये कर्णने वारुणास्त्रका प्रयोग किया । उससे वह आग दूझ गयी । उस समय भेषोंकी घटा घिर आयी और चारों दिशाओंमें अंधेरा छा गया । सब ओर पानी-ही-पानी नजर आने लगा । तब अर्जुनने वायव्यास्त्रसे कर्णके छोड़े हुए वारुणास्त्रको शान्त कर दिया; बादलोंकी वह घटा छिन्न-भिन्न हो गयी । तत्पश्चात् उन्होंने गाण्डीव धनुष, उसकी प्रत्यञ्चा तथा बाणोंको अभिमन्त्रित करके अत्यन्त प्रभावशाली ऐन्द्रास्त्र वज्रको प्रकट किया । उससे क्षुरप्र, अञ्जलिक, अर्धचन्द्र,

नालीक, नाराच और वराहकर्ण आदि तीखे अस्त्र हंजारोंकी संख्यामें छूटने लगे । उन अस्त्रोंसे कर्णके सारे अङ्ग, घोड़े, धनुष, दोनों पहिये और ध्वजाएँ बिध गयीं । उस समय कर्णका शरीर बाणोंसे आच्छादित होकर खूनसे लथपथ हो रहा था, क्रोधके मारे उसकी आँखें बदल गयीं । अतः उसने भी समुद्रके समान गर्जना करनेवाले भार्गवास्त्रको प्रकट किया और अर्जुनके महेन्द्रास्त्रसे प्रकट हुए बाणोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । इस प्रकार अपने अस्त्रसे शत्रुके अस्त्रकी दवांकर कर्णने पाण्डव-सेनाके रथी, हाथीसवार और पैदलोंका संहार आरम्भ किया । भार्गवास्त्रके प्रभावसे जब वह पाञ्चालों और सोमकोंको भी पीड़ित करने लगा तो वे भी क्रोधमें भरकर उसपर दूट पड़े और चारों ओरसे तीखे बाण मारकर उसे वीधने लगे । किंतु सूतपुत्रने पाञ्चालोंके रथी, हाथीसवार और घुड़सवारोंके समुदायोंको अपने बाणोंसे विदीर्ण कर डाला; वे चौखते-चिल्लाते हुए प्राण त्यागकर धराशायी हो गये । उस समय आपके सैनिक कर्णकी विजय समझकर सिंहनाद करने और ताली पीटने लगे ।

यह देख भीमसेन क्रोधमें भरकर अर्जुनसे बोले— ‘विजय ! धर्मकी अवहेलना करनेवाले इस पापी कर्णने आज तुम्हारे सामने ही पाञ्चालोंके प्रधान-प्रधान वीरोंको कैसे मार डाला ? तुम्हें तो कालिकेय नामक दानव भी नहीं परास्त कर सके, साक्षात् महादेवजीसे तुम्हारी हाथापाई हो चुकी है; फिर भी इस सूतपुत्रने तुम्हें पहले ही बाण मारकर कैसे वीध डाला ? तुम्हारे चलाये हुए बाणोंको इसने नष्ट कर दिया ! यह तो मुझे एक अचंभेकी बात मालूम हो रही है । अरे ! समासें द्रौपदीको जो कष्ट दिये गये हैं, उनको याद करो ; इस पापीने निर्भय होकर जो हमलोगोंको नपुंसक कहा तथा तीखी और कठोर बातें सुनायीं, उन्हें भी स्मरण करो । इन सारी बातोंको ध्यानमें रखकर शीघ्र ही कर्णका नाश कर डालो ! तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो ? यह लापरवाहीका समय नहीं है ।’

तदनन्तर श्रीकृष्णने भी अर्जुनसे कहा—‘वीरवर ! यह क्या बात है ? तुमने जितने वार प्रहार किये, कर्णने प्रत्येक वार तुम्हारे अस्त्रको नष्ट कर दिया । आज तुमपर कैसा मोह छा रहा है ? ध्यान नहीं देते ? ये तुम्हारे शत्रु कौरव कितने हृष्यमें भरकर गरज रहे हैं ! जिस धैर्यसे तुमने प्रत्येक युगमें मयंकर राक्षसोंको मारा और दम्भोद्भूव नामक असुरोंका विनाश किया है, उसी धैर्यसे आज कर्णको भी नष्ट करो !’

कर्ण और अर्जुनका युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! भीमसेन तथा श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर अर्जुनने मृतपुत्रके वधका विचार किया। साथ ही, भूमिपर आनेके प्रयोजनपर ध्यान देकर उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा—‘भगवन् ! अब मैं संसारका कल्याण और मृतपुत्रका वध करनेके लिये महान् भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ ! इसके लिये आप, ब्रह्माजी, शंकरजी, समस्त देवता तथा सम्पूर्ण ब्रह्मदेवता मुझे आज्ञा दें ।’ भगवान्से ऐसा कहकर सत्यसाचीने ब्रह्माजीको नमस्कार किया और जिसका मन-ही-मन प्रयोग होता है, उस ब्रह्मास्त्रको प्रकट किया। परंतु कर्णने अपने बाणोंकी बौद्धारसे उस अस्त्रको नष्ट कर डाला।

यह देख भीमसेन क्रोधसे तमतमा उठे, उन्होंने सत्य-प्रतिज्ञ अर्जुनसे कहा—‘सत्यसाचिन् ! सब लोग जानते हैं कि तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्रके ज्ञाता हो, इसलिये अब और किसी अस्त्रका संग्रह न करो ।’ यह सुनकर अर्जुनने दूसरे अस्त्रको धनुषपर रखवा; फिर तो उससे प्रज्वलित बाणोंकी वर्षा होने लगी, जिससे चारों दिशाएँ आच्छादित हो गयीं। कोना-कोना भर गया। केवल बाण ही नहीं; उससे भयंकर विजूल, फरसे, चक्र और नाराच आदि अस्त्र भी संकड़ोंकी संख्यामें निकलकर सब ओर खड़े हुए योद्धाओंके प्राण लेने लगे। किसीका सिर कटकर गिरा तो कोई घों ही भयके मारे गिर पड़ा, कोई दूसरेको गिरता देख स्वयं वहाँसे चंपत हो गया। किसीकी दाहिनी बांह कटी तो किसीकी बायाँ। इस प्रकार किरिटीधारी अर्जुनने शत्रुपक्षके मुख्य-मुख्य योद्धाओंका संहार कर डाला।

दूसरे ओरसे कर्णने भी अर्जुनपर हजारों बाणोंकी वर्षा की। फिर भीमसेन, श्रीकृष्ण और अर्जुनको तीन-तीन बाणोंसे बाँधकर उसने बड़े जोरसे गर्जना की। तब अर्जुनने पुनः अठारह बाण चलाये; उनमेंसे एक बाणके द्वारा उन्होंने कर्णकी ध्वजा छेद डाली, चार बाणोंसे राजा शल्यको और तीनसे कर्णको घायल किया, शेष दस बाणोंका प्रहार राजकुमार समापतिपर हुआ। दो बाणोंसे राजकुमारके ध्वजा और धनुष कट गये, पाँचसे, घोड़े और सारथि मारे गये, फिर दोसे उनकी दोनों भुजाएँ कटतीं और एकसे मस्तक उड़ा दिया गया। इस प्रकार मृत्युको प्राप्त होकर वह राजकुमार रथसे नीचे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुनने पुनः तीन, आठ, दो, चार और दस बाणोंसे कर्णको बाँध डाला। फिर अस्त्र-शस्त्रोंसहित चार सौ हाथीसवारों, आठ सौ रथियों, एक

हजार घुड़सवारों तथा आठ हजार पंदल सिपाहियोंको मोतके घाट उतार दिया। यही नहीं, उन्होंने बाणोंसे कर्णको उसके सारथि, रथ, घोड़े और ध्वजासहित टक दिया; अब यह दिखायी नहीं पड़ता था। तदनन्तर, उन्होंने कौरवोंको अपने बाणोंका निशाना बनाया। उनकी मार खाकर कौरव चिल्लाते हुए कर्णके पास आये और कहने लगे—‘कर्ण ! तुम शीघ्र ही बाणोंकी वर्षा करके पाण्डुपुत्र अर्जुनको मार डालो। नहीं तो यह पहले कौरवोंको ही समाप्त कर देना चाहता है।’

उनकी प्रेरणासे कर्णने पूरी शक्ति लगाकर लगातार बहुत-से बाणोंकी वर्षा की, इससे पाण्डव और पाञ्चाल सैनिकोंका नाश होने लगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र-विद्याके ज्ञाता थे, इसलिये बड़े-बड़े अस्त्रोंका प्रयोग करके वे अपने-अपने शत्रुओंकी सेनाका संहार करने लगे। इतनेहीमें राजा युधिष्ठिर मन्त्र तथा ओषधियोंके बलसे पूर्ण स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये वहाँ आये। हितैषी बंधोंने उनके शरीर से बाण निकालकर घाव अच्छा कर दिया था। धर्मराजको संग्राम-भूमिमें उपस्थित देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई।

उस समय मृतपुत्र कर्णने अर्जुनको शूद्रक नामवाले सौ बाण मारे, फिर श्रीकृष्णको साठ बाणोंसे बाँधकर अर्जुनको भी आठ बाणोंसे घायल किया। साथ ही, भीमसेनपर भी उसने हजारों बाणोंका प्रहार किया। तब पाण्डव और सोमक चौर कर्णको तेज किये हुए बाणोंसे आच्छादित करने लगे। किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओंको आगे बढ़नेसे रोक दिया और अपने अस्त्रोंसे उनके अस्त्रोंको नष्ट करके रथ, घोड़े तथा हाथियोंका भी संहार कर डाला। अब तो आपके योद्धा यह समझकर कि कर्णकी विजय हो गयी, ताली पीटने और सिंहावाद करने लगे।

इसी समय अर्जुनने हँसते-हँसते दस बाणोंसे राजा शल्यके कवचको बाँध डाला, फिर बारह तथा सात बाण मारकर कर्णको भी घायल कर दिया। कर्णके शरीरमें बहुत-से घाव हो गये, वह धूनसे लयपय हो गया। तदनन्तर कर्णने भी अर्जुनको तीन बाण मारे और श्रीकृष्णको मारनेकी इच्छासे उसने पाँच बाण चलाये। वे बाण श्रीकृष्णके कवचको छेदकर पृथ्वीपर जा पड़े। यह देख अर्जुन क्रोधसे जल उठे, उन्होंने अनेकों दमकते हुए बाण मारकर कर्णके मर्मस्थानोंको बाँध डाला। इससे कर्णको बड़ी पीडा हुई, वह विचलित हो उठा; किंतु किसी तरह धर्म धारण कर रणभूमिमें उटा

रहा । तत्पश्चात् अर्जुनने बाणोंका ऐसा जाल फँलाया कि दिशाएँ, कोने, सूर्यकी प्रभा तथा कर्णका रथ—इन सबका दीखना बंद हो गया । उन्होंने कर्णके पहियोंकी रक्षा करनेवाले, चरणोंकी रक्षा करनेवाले, आगे चलनेवाले और पीछे रहकर रक्षा करनेवाले समस्त सैनिकोंका वात-की-वातमें सफाया कर डाला । इतना ही नहीं; दुर्योधन जिनका बड़ा आदर करता था, उन दो हजार कौरव वीरोंकी भी उन्होंने रथ, घोड़े और सारथिसहित मौतके मुखमें पहुँचा दिया ।

अब तो आपके बचे हुए पुत्र कर्णका आसरा छोड़कर भाग चले । कौरव योद्धा मरे हुए अथवा घायल होकर चीखते-चिल्लाते हुए बाप-बेटोंकी भी छोड़कर पलायन कर गये । उस समय कर्णने जब चारों ओर दृष्टि डाली तो उसे सब सूना ही दिखायी पड़ा; भयभीत होकर भागे हुए कौरवोंने उसे अकेला ही छोड़ दिया था; किंतु इससे उसको तनिक भी घबराहट नहीं हुई । उसने पूर्ण उत्साहके साथ अर्जुनपर धावा किया ।

भगवान्द्वारा अर्जुनकी सर्पमुख बाणसे रक्षा तथा अश्वसेन नागका वध

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर भागे हुए कौरव-सैनिक धनुषसे छोड़ा हुआ बाण जहाँतक पहुँचता है, उतनी दूरीपर जाकर खड़े हो गये । वहाँसे उन्होंने देखा कि अर्जुनका अस्त्र चारों ओर विजलीके समान चमक रहा है । फिर यह भी देखनेमें आया कि कर्ण अपने भयंकर बाणोंसे उनके अस्त्रको नष्ट किये डालता है । अब अर्जुन प्रचण्ड रूप धारण कर कौरवोंको भस्म करने लगे । यह देख कर्णने आयवर्ण अस्त्रका प्रयोग किया । वह शत्रुनाशक अस्त्र उसे परशुरामजीसे प्राप्त हुआ था । उसके द्वारा कर्णने अर्जुनके अस्त्रको शान्त कर दिया और उन्हें भी तेज किये हुए सायकोसे बंध डाला । उस समय कर्ण और अर्जुनने इतनी बाण-वर्षाकी कि, सारा आकाश ढक गया, उसमें तनिक भी जगह खाली नहीं रह गयी । कौरवों और सौमकोंको चारों ओर बाणोंका जाल-सा फँला हुआ दिखायी देने लगा । घोर अंधकार छा गया, बाणोंके सिवा और कुछ नहीं सूझता था । वहाँ युद्ध करते समय वीरता, अस्त्र-संचालन, मायाबल तथा पुरुषार्यमें कभी सूतपुत्र कर्ण बड़े जाता था और कभी अर्जुन । दोनों एक दूसरेका छिद्र देखते हुए भयंकर प्रहार कर रहे थे; यह देखकर समस्त योद्धाओंकी बड़ा आश्चर्य हो रहा था । उस समय अन्तरिक्षमें खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करने लगे—‘वाह रे कर्ण ! शावाश अर्जुन !’—यही बात आकाशमें सब ओर सुनायी पड़ती थी ।

इसी समय पाताललोकमें रहनेवाला अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुनसे वर मानता था, कर्ण तथा अर्जुनका युद्ध होता जान बड़े वेगसे उछलकर वहाँ आ पहुँचा और अर्जुनसे बदला लेनेका यही उपयुक्त समय है, ऐसा सोच बाणका रूप बनाकर यह कर्णके तरकसमें समा गया । उस युद्धमें

जब कर्ण किसी तरह अर्जुनसे बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, तब उसे अपने सर्पमुख बाणकी याद आयी । वह बाण बड़ा भयंकर था, आगमें तपाया होनेके कारण वह सदा देदीप्यमान रहता था । कर्णने अर्जुनको ही मारनेके लिये उसे बड़े यत्नसे और बहुत दिनोंसे सुरक्षित रखा था । वह नित्य उसकी पूजा करता और सोनेके तरकसमें चन्दनके चूर्णके अंदर उसे रखता था । उसी बाणको उसने धनुषपर चढ़ाया और अर्जुनकी ओर ताककर निशाना ठीक किया । परंतु उस बाणके धोखेमें अश्वसेन नामक नाग ही धनुषपर चढ़ चुका था—यह देख इन्द्रादि लोकपाल ‘हाय ! हाय !’ करने लगे ।

उस समय मद्रराज शल्यने जब उस भयंकर बाणको धनुषपर चढ़ा हुआ देखा तो कहा—‘कर्ण ! तुम्हारा यह बाण शत्रुके कण्ठमें नहीं लगेगा; जरा सोच-विचारकर फिरसे निशाना ठीक करो, जिससे यह मस्तक काट सके ।’

यह सुनकर कर्णकी आँखें क्रोधसे उद्दीप्त हो उठीं । वह शल्यसे कहने लगा—‘मद्रराज ! कर्ण दो बार निशाना नहीं साधता । मेरे-जैसे वीर कपटपूर्वक युद्ध नहीं करते ।’

यह कहकर कर्णने जिसकी वर्षोंसे पूजा की थी, उस बाणको शत्रुकी ओर छोड़ दिया और उनका तिरस्कार करते हुए उच्च स्वरसे कहा—‘अर्जुन ! अब तू मारा गया ।’

कर्णके धनुषसे छूटा हुआ वह बाण अन्तरिक्षमें पहुँचते ही प्रज्वलित हो उठा । उसे बड़े वेगसे आते देख भगवान् श्रीकृष्णने खेल-सा करते हुए अपने रथको तुरंत परसे दबा दिया, भार पड़नेसे रथके पहिये कुछ-कुछ जमीनमें धँस गये । साथ ही सोनेके गहनोंसे सजे हुए घोड़े भी पथनीपर पड़ने

दंष्टर जरा-सा झुक गये । भगवान्का यह कौरव देख



आकाशमें उनकी प्रसंसासे भरी हुई दिव्य-बाणी सुनायी देने लगी । फूलोंकी बर्या होने लगी । कर्णका छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा हो जानेके कारण अर्जुनके कण्ठमें न लगकर मुकुटमें लगा । वह मस्तकसे नीचे जा पड़ा । अर्जुनका वह मुकुट पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग और वरुणलोकमें भी बिखला था; भूमि, चन्द्रमा और अग्निको प्रभाके समान उसकी चमक थी । साक्षात् ब्रह्माजीने बड़े प्रयत्न और तपस्यासे उसको इन्द्रके लिये तैयार किया था । उससे बड़ी भीठी सुगन्ध फैलती रहती थी । अर्जुनने वरुणको मारनेकी इच्छासे जब रथ-यात्रा की थी, उस समय इन्द्रने प्रसन्न होकर उन्हें अपने हाथसे यह मुकुट पहनाया था । वही मुकुट कर्णके साथ युद्ध करते समय सर्पकी विषाग्निसे जीर्ण-जीर्ण होकर जलता हुआ जमीनपर जा गिरा । इससे अर्जुनको तनिक भी घबराहट नहीं हुई, वे अपने सिरके बालोंपर सफेद साफा बांधकर धैर्यपूर्वक डटे रहे । उस समय वे भीतके मूलसे बचे थे; क्योंकि सर्पमुख बाणके रूपमें अर्जुनके साथ वरुण रखनेवाला तमस्कका पुत्र था । किरौटपर आघात करके वह पुनः

तरकसमें घुसना ही चाहता था किंतु कर्णने उसे देख लिया । कर्णके पृष्ठनेपर वह कहने लगा—'कर्ण ! तुमने अच्छी तरह सोच-बिचारकर बाण नहीं छोड़ा था, इसीलिये मैं अर्जुनका मस्तक न उड़ा सका; अब जरा निराशा साधकर चलाओ, फिर मैं अपने और तुम्हारे इस शत्रुका सिर अभी काट डालता हूँ ।'

कर्णने पूछा—'तुम कौन हो ?' नागने उत्तर दिया—'मैं नाग हूँ । अर्जुनने खाण्डव वनमें मेरी माताका वध करके बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके कारण मेरी उससे दुश्मनी हो गयी है । यदि स्वयं वज्रधारी इन्द्र उसकी रक्षा करने आवें, तो भी उसे यमराजके घर जाना पड़ेगा ।' कर्ण बोला—'नाग ! आज कर्ण दूसरेके बलका आश्रय लेकर विजय पाना नहीं चाहता । यदि तुम्हारा संघान करनेसे मैं संकड़ों अर्जुनोंकी मार सकूँ, तो भी मैं एक बाणको दो बार संघान नहीं कर सकता । मेरे पास सर्पबाण है, उत्तम प्रयत्न है और मनमें रोष भी है; इन सबके द्वारा मैं स्वयं ही अर्जुनको मार डालूँगा, तुम प्रसन्नतापूर्वक लौट जाओ ।'

कर्णकी यह बात नागराजसे नहीं सही गयी, वह स्वयं ही अर्जुनका वध करनेके लिये अपना भयंकर रूप प्रकट करके उनकी ओर दौड़ा । मह देव श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—'यह महान् सर्प तुम्हारा दुश्मन है, इसे मार डालो ।' अर्जुनने पूछा—'यह कौन है ?' भगवान्ने कहा—'खाण्डव वनमें जब तुम अग्निदेवको तृप्त कर रहे थे, उस समय इसकी माताने पुत्रका प्राण बचानेके लिये इसे निगल लिया था । इस प्रकार मंके पेटमें अपने शरीरकी छिपाकर जब यह-उसके साथ ही आकाशमें उड़ रहा था, उसी समय तुमने दोनोंको एकरूप मानकर केवल इमकी माताको मार डाला था । उसी वरुणकी याद करके आज यह तुम्हारी ओर आ रहा है ।'


तब अर्जुनने आकाशमें तिरछी गतिसे उड़ते हुए उस नागको तेज किये हुए छः बाण मारे । बाणोंके प्रहारसे उसके शरीरके टुकड़े-टुकड़े हो गये और वह जमीनपर गिर पड़ा । उसके मारे जानेके बाद भगवान्ने पृथ्वीमें धँसे हुए रथको अपनी दोनों भुजाओंसे ऊपर निकाला । उस समय कर्णने श्रीकृष्णकी वारह तथा अर्जुनको नव्ये बाणोंसे घायल कर दिया । फिर एक भयंकर बाणसे अर्जुनको बंध करके वह धड़े जोरसे गर्जने और हँसने लगा ।

अर्जुनके प्रहारसे कर्णकी मूर्च्छा, पृथ्वीमें धँसे हुए पहियेको निकालते समय कर्णका धर्मकी डुहाई देना और भगवान्का उसे फटकारना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! कर्णने हँसकर जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी, वह अर्जुनसे नहीं सहती गयी। उन्होंने संकटों वाण मारकर उसके मर्मस्थानोंको बौध डाला। फिर कालदण्डके समान नव्वे सायकोंसे उसको घायल किया। इन प्रहारोंके कारण कर्णके शरीरमें बहुत-से घाव हो गये और उन्ने बड़ी वेदना होने लगी। उसके मस्तकपर एक सुन्दर मुकुट या जित्तमें उत्तम-उत्तम मणि, हीरे और सुवर्ण जड़े हुए थे। कानोंमें सुन्दर कुण्डल शोभा पा रहे थे। अर्जुनके बाणोंकी चोट खाकर कर्णका वह मुकुट कुण्डलोंके साथ ही जमीनपर जा पड़ा। उसने जो कवच पहन रखा था, वह भी बड़ा कीमती और चमकीला था। उस कवचको कारीगरोंने बहुत दिनोंमें बनाया था, परंतु अर्जुनने एक ही क्षणमें बाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इसके बाद तेज किये हुए चार बाण मारकर उन्होंने उसे और भी घायल कर दिया। जैसे वात, पित्त और कफके प्रकोपसे होनेवाले सन्निपात-ज्वरमें रोगीको विशेष व्यथा होती है, वैसे ही शत्रुका वारंवार प्रहार होनेसे कर्णको बड़ी पीडा हुई। अर्जुनमें कार्य-कुशलता, उद्योग और बल सभी कुछ था, इनके सहारे वे अपने धनुषसे तेज किये हुए बाणोंकी वर्षा करके कर्णके मर्मस्थानोंको छेदने लगे। फिर उन्होंने उसकी छातीमें यमदण्डके समान नौ बाण मारे। इस प्रकार चोट-पर-चोट खाकर कर्ण अत्यन्त आहत हो गया, उसकी मुटठी खुल गयी, धनुष और तरकस गिर पड़े और वह रथपर ही गिरकर बेहोश हो गया।

अर्जुन थोठे थोठे पुरुषोंके व्रतका पालन करते थे; उन्होंने जब कर्णको संकटमें पड़ा देखा तो उस समय उसे मारनेका विचार छोड़ दिया। यह देख भगवान् श्रीकृष्ण सहसा बोल उठे—‘पाण्डुनन्दन ! यह लापरवाही कौसी ? युद्धिमान् पुरुष संकटमें पड़े हुए शत्रुको मारकर धर्म और यश प्राप्त करते हैं। तुम भी इसका नाश करनेके लिये शीघ्रता करो; यदि यह पहलेहीके समान शक्तिशाली हो जायगा तो फिर तुमपर आक्रमण करेगा।’ तब अर्जुनने ‘बहुत अच्छा भगवन् ! ऐसा ही कहेंगा’ यों कहकर श्रीकृष्णका सम्मान किया और शीघ्र ही उत्तम बाणोंसे कर्णको बौधना आरम्भ किया। उन्होंने ‘वत्सदन्त’ नामवाले सायकोंसे कर्णको उसके रथ और घोड़ोंसहित ढक दिया और पूरी शक्ति लगाकर चारों दिशाओंको बाणोंसे आच्छादित कर दिया।

तदनन्तर, कर्णको जब चेत हुआ तो उसने धैर्य धारण करके अर्जुनको दस और श्रीकृष्णको छः बाणोंसे बौध डाला। अब अर्जुनने कर्णपर एक भयंकर बाण छोड़नेका विचार किया। इधर, उसके वधका समय भी आ पहुँचा था। उस समय कालने अदृश्य रहकर कर्णको ब्राह्मणके कोपवश दिये हुए शापकी याद दिला दी और उसके वधकी सूचना देते हुए कहा ‘अब पृथ्वी तुम्हारे पहियेको निगलना ही चाहती है।’ इसी समय परशुरामजीके द्वारा मिले हुए ब्राह्म अस्त्रकी याद उसके मनसे जाती रही। उधर, पृथ्वी ब्राह्मणके शापके



अनुसार उसके बायें पहियेको निगलने लगी। रथ डगमग हुआ और एक पहिया जमीनमें धँस गया।

इस प्रकार जब पहिया फँसा, परशुरामजीका दिया हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख बाण भी कट गया, तब कर्ण बहुत खबराया। वह एक साथ इतने संकटोंको न सह सकनेके कारण विषादमें डूब गया और हाथ हिला-हिलाकर धर्मको निन्दा करने लगा—‘धर्मवेत्ता लोग सदा कहा करते थे कि धर्म खबरय ही मनुष्यकी रक्षा करता है। मैं भी

शास्त्रमें जैसा सुना गया है और जैसी अपनी शक्ति है, उसके अनुसार धर्मपालनके लिये सदा ही प्रयत्न करता रहा है। किन्तु आज वह भी मुझे मार ही रहा है, बचाता नहीं। इसलिये मेरी समझमें तो यही बात आती है कि धर्म भी अपने भक्तोंकी सदा रक्षा नहीं करता।'

जब कर्ण ये बातें कह रहा था, उस समय उसके घोड़े और सारथि लड़खड़ा रहे थे। वह स्वयं भी अर्जुनके बाणोंकी मारसे विचलित हो उठा था। भ्रमस्थानोमें घोट लगनेसे वह क्षिणित हो गया था, काम करनेकी शक्ति नहीं रह गयी थी। अतः रह-रहकर धर्मको निन्दा ही करता था। इसके बाद उसने कृष्णके हाथमें तौल और अर्जुनके सात भयंकर बाण मारे। तब अर्जुनने भी कर्णपर वज्रके समान भयंकर सत्रह बाणोंका प्रहार किया, वे उसके शरीरको छेदते हुए पृथ्वीपर जा पड़े। उस प्रहारसे कर्ण काँप उठा, किन्तु बल-पूर्वक अपने शरीरको स्थिर रखकर उसने द्रुह्यास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुनने भी अपने बाणोंको अभिमन्त्रित करके कर्णपर उनकी वर्षा आरम्भ कर दी। किन्तु महारथी कर्णने सामने आते ही अर्जुनके बाणोंको नष्ट कर डाला। तब भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'पार्थ ! राधानन्दन कर्ण तुम्हारे बाणोंको नष्ट किये डालता है; अतः अब तुम किसी उत्तम अस्त्रका प्रयोग करो।' यह सुनकर अर्जुन सावधान हो गये; उन्होंने मन्त्र पढ़कर अपने धनुषपर ब्रह्मास्त्रको चढ़ाया और बाणोंसे सभस्त दिशाओंको आच्छादित करके कर्णको मारना आरम्भ किया। तब कर्णने तेज किये हुए बाणोंसे उनके धनुषको डोरी काट दी। अर्जुनने दूसरी डोरी चढ़ायी, किन्तु कर्णने उसे भी काट दिया। इस प्रकार तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवां, दसवीं, और ग्यारहवीं बार चढ़ायी हुई डोरीको भी उसने काट दिया। परन्तु अर्जुनके पास सौ डोरियाँ मौजूद थीं, इस बातको कर्ण नहीं जानता था। उन्होंने फिर नयी डोरी चढ़ायी और उसे अभिमन्त्रित करके कर्णपर बाणोंकी झड़ी लगा दी। उस समय कर्ण अपने अस्त्रोंसे अर्जुनके अस्त्रोंको काटकर पुनः उन्हें बीध डालता था। इस प्रकार उसने अर्जुनकी अपेक्षा बढ़कर पराक्रम दिखाया।

इधर, श्रीकृष्णने जब अर्जुनको कर्णके बाणोंसे पीड़ित देखा तो कहा—'अर्जुन ! अस्त्र उठाओ और निकटसे प्रहार करो।' तब उन्होंने मन्त्र पढ़कर रीतास्त्रको धनुषपर चढ़ाया और उसे कर्णपर छोड़नेका विचार किया। इतनेमें कर्णके रथका पहिया पृथ्वीमें अधिक घोंग गया; यह देख वह सुरंत रमसे उतर पड़ा और दोनों भुजाओंसे पहियेको




पकड़कर ऊपर उठानेका उद्योग करने लगा। उसने सात द्वीपोंवाली इस पृथ्वीको पर्वत और वनसहित चार अंगुल ऊपर उठा दिया, भाग फँसा हुआ पहिया नहीं निकल सका। उसकी ओलोंसे आँसू बहने लगे और वह अर्जुनकी ओर देखकर बोला—'कुन्तीनन्दन ! तुम बड़े धनुर्धर हो; जबतक मैं अपना यह फँसा हुआ पहिया ऊपर निकाल न सँ, तबतक क्षणभरके लिये ठहर जाओ। तुम्हें नीच पुरुषोंके मार्गपर नहीं चलना चाहिये। तुम्हारे लिये तो श्रेष्ठ आचरण ही उचित है। जिसके सिरके बाल बिखर गये हों, जो पीठ दिखाकर भागा जाता हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ रहा हो, शरणमें आया हो और प्राण-रक्षाके लिये प्रार्थना कर रहा हो, जिसने अपने हथियार रख दिये हों, जिसके पास बाण न हो, जिसका कवच फट गया हो, अस्त्र-शास्त्र गिर गये या टूट गये हों, ऐसे योद्धापर उत्तम धतका आचरण करनेवाले शूरवीर शास्त्र नहीं चलते। तुम भी संसारके यहूत बड़े वीर और सदापारी हो। युद्ध-धर्मको जानते हो। तुमने उपनिषदोंके गहन ज्ञानमें दृष्टकी सगायी है। तुम दिव्या-स्त्रोंके ज्ञाता और उदार हृदयवाले हो। युद्धमें कार्तवीर्यको भी मात करते हो। महाबाहो ! जबतक मैं इस फँसे हुए चक्केको ऊपर उठा न सँ, तबतक रुक जाओ। तुम रथपर हो और मैं जमीनपर। साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, इसलिये मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है।'

अर्जुनके प्रहारसे कर्णकी मूर्च्छा, पृथ्वीमें धँसे हुए पहियेको निकालते समय कर्णका धर्मकी दुहाई देना और भगवान्का उसे फटकारना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! कर्णने हँसकर जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी, वह अर्जुनसे नहीं सही गयी । उन्होंने संकटों वाण मारकर उसके मर्मस्थानोंको बौंध डाला । फिर कालदण्डके समान नद्वे सायकोंसे उसको घायल किया । इन प्रहारोंके कारण कर्णके शरीरमें बहुत-से घाव हो गये और उम्रे बड़ी वेदना होने लगी । उसके मस्तकपर एक सुन्दर मुकुट था जिसमें उत्तम-उत्तम मणि, हीरे और सुवर्ण जड़े हुए थे । कानोंमें सुन्दर कुण्डल शोभा पा रहे थे । अर्जुनके वाणोंकी चोट खाकर कर्णका वह मुकुट कुण्डलोंके साथ ही जमीनपर जा पड़ा । उसने जो कवच पहन रक्खा था, वह भी बड़ा कीमती और चमकीला था । उस कवचको कारीगरोंने बहुत दिनोंमें बनाया था, परन्तु अर्जुनने एक ही क्षणमें वाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । इसके बाद तेज किये हुए चार वाण मारकर उन्होंने उसे और भी घायल कर दिया । जैसे वात, पित्त और कफके प्रकोपसे होनेवाले सन्निपात-ज्वरमें रोगीको विशेष व्यथा होती है, वैसे ही शत्रुका वारंवार प्रहार होनेसे कर्णको बड़ी पीडा हुई । अर्जुनमें कार्य-कुशलता, उद्योग और बल सभी कुछ था, इनके सहारे वे अपने धनुषसे तेज किये हुए वाणोंकी वर्षा करके कर्णके मर्मस्थानोंको छेदने लगे । फिर उन्होंने उसकी छातीमें यमदण्डके समान नौ वाण मारे । इस प्रकार चोट-पर-चोट खाकर कर्ण अत्यन्त आहत हो गया, उसकी मूट्ठी खल गयी, धनुष और तरकस गिर पड़े और वह रथपर ही गिरकर वेहोश हो गया ।

अर्जुन थ्रोठ थे और थ्रोठ पुरुषोंके जतका पालन करते थे; उन्होंने जब कर्णको संकटमें पड़ा देखा तो उस समय उसे मारनेका विचार छोड़ दिया । यह देख भगवान् श्रीकृष्ण सहसा बोल उठे—‘पाण्डुनन्दन ! यह लापरवाही कौसी ? दृढिमान् पुरुष संकटमें पड़े हुए शत्रुको मारकर धर्म और यश प्राप्त करते हैं । तुम भी इसका नाश करनेके लिये शीघ्रता करो; यदि यह पहलेहीके समान शक्तिशाली हो जायगा तो फिर तुमपर आक्रमण करेगा ।’ तब अर्जुनने ‘बहुत अच्छा भगवन् ! ऐसा ही कहेंगा’ यों कहकर श्रीकृष्णका सम्मान किया और शीघ्र ही उत्तम वाणोंसे कर्णको बौंधना आरम्भ किया । उन्होंने ‘वत्सवन्त’ नामवाले सायकोंसे कर्णको उसके रथ और घोड़ोंतहित ढक दिया और पूरी शक्ति लगाकर चारों दिशाओंको वाणोंसे आच्छादित कर दिया ।

तदनन्तर, कर्णको जब चेत हुआ तो उसने धैर्य धारण करके अर्जुनको दस और श्रीकृष्णको छः वाणोंसे बौंध डाला । अब अर्जुनने कर्णपर एक भयंकर वाण छोड़नेका विचार किया । इधर, उसके वधका समय भी आ पहुँचा था । उस समय कालने अदृश्य रहकर कर्णको ब्राह्मणके कोपवश दिये हुए शायकी याद दिला दी और उसके वधकी सूचना देते हुए कहा ‘अब पृथ्वी तुम्हारे पहियेको निगलना ही चाहती है ।’ इसी समय परशुरामजीके द्वारा मिले हुए ब्राह्म अस्त्रकी याद उसके मनसे जाती रही । उधर, पृथ्वी ब्राह्मणके शायके



अनुसार उसके वायें पहियेको निगलने लगी । रथ डगमग हुआ और एक पहिया जमीनमें धँस गया ।

इस प्रकार जब पहिया फँसा, परशुरामजीका दिया हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख वाण भी कट गया, तब कर्ण बहुत घबराया । वह एक साथ इतने संकटोंको न सह सकनेके कारण विषादमें डूब गया और हाथ हिला-हिलाकर धर्मकी निन्दा करने लगा—‘धर्मवेत्ता लोग सदा कहा करते थे कि धर्म अवश्य ही मनुष्यकी रक्षा करता है । मैं भी

शास्त्रमें जैसा सुना गया है और जैसी अपनी शक्ति है, उसके अनुसार धर्मपालनके लिये सदा ही प्रयत्न करता रहा है। किन्तु आज वह भी मूर्ख मार ही रहा है, बचाता नहीं। इसलिये मेरी समझमें तो यही बात आती है कि धर्म भी अपने भक्तोंको सदा रक्षा नहीं करता।'

जब कर्म ने बातें कह रहा था, उस समय उसके घोड़े और सारथि लड़खड़ा रहे थे। वह स्वयं भी अर्जुनके बाणोंकी मारसे विचलित हो उठा था। मर्मस्थानोंमें चोट लगनेसे वह शिथिल हो गया था, काम करनेकी शक्ति नहीं रह गयी थी। अतः रह-रहकर धर्मकी निन्दा ही करता था। इसके बाद उसने कृष्णके हाथमें तीन और अर्जुनके सात भयंकर बाण मारे। तब अर्जुनने भी कर्मपर वज्रके समान भयंकर सत्रह बाणोंका प्रहार किया, वे उसके शरीरको छेदते हुए पृथ्वीपर जा पड़े। उस प्रहारसे कर्म कांप उठा, किन्तु बलपूर्वक अपने शरीरको स्थिर रखकर उसने द्रह्यास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुनने भी अपने बाणोंको अभिमन्त्रित करके कर्मपर उनको वर्षा आरम्भ कर दी। किन्तु महारथी कर्मने सामने आते ही अर्जुनके बाणोंको नष्ट कर डाला। तब भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'पार्थ ! राधानन्दन कर्म तुम्हारे बाणोंको नष्ट किये डालता है; अतः अब तुम किसी उत्तम अस्त्रका प्रयोग करो।' यह सुनकर अर्जुन सावधान हो गये; उन्होंने मन्त्र पढ़कर अपने धनुषपर ब्रह्मास्त्रकी चढ़ाया और बाणोंसे समस्त दिशाओंको आच्छादित करके कर्मको मारना आरम्भ किया। तब कर्मने तेज किये हुए बाणोंसे उनके धनुषकी डोरी काट दी। अर्जुनने दूसरी डोरी चढ़ायी, किन्तु कर्मने उसे भी काट दिया। इस प्रकार तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नववीं, दसवीं, और ग्यारहवीं बार चढ़ायी हुई डोरीको भी उसने काट दिया। परन्तु अर्जुनके पास सौ डोरियाँ मौजूद थीं, इस बातको कर्म नहीं जानता था। उन्होंने फिर नयी डोरी चढ़ायी और उसे अभिमन्त्रित करके कर्मपर बाणोंकी झड़ी लगा दी। उस समय कर्म अपने अस्त्रोंसे अर्जुनके अस्त्रोंको काटकर पुनः उन्हें धौंध डालता था। इस प्रकार उसने अर्जुनकी अपेक्षा बढ़कर पराक्रम दिखाया।

इधर, श्रीकृष्णने जब अर्जुनको कर्मके बाणोंसे पीड़ित देखा तो कहा—'अर्जुन ! अस्त्र उठाओ और निकटसे प्रहार करो।' तब उन्होंने मन्त्र पढ़कर रौद्रास्त्रको धनुषपर चढ़ाया और उसे कर्मपर छोड़नेका विचार किया। इतनेमें कर्मके रथका पहिया पृथ्वीमें अधिक धँस गया; यह देख वह तुरंत रथसे उतर पड़ा और दोनों भुजाओंसे पहियेको



पकड़कर ऊपर उठानेका उद्योग करने लगा। उसने सात हीरोवाली इस पृथ्वीको पवंत और वनसहित चार अंगुल ऊपर उठा दिया, मगर फँसा हुआ पहिया नहीं निकल सका। उसको आँतोंसे आँसु बहने लगे और वह अर्जुनकी ओर देखकर बोला—'कुन्तीनन्दन ! तुम बड़े धनुर्धर हो; जबतक मैं अपना यह फँसा हुआ पहिया ऊपर निकाल न सँ, तबतक क्षणभरके लिये ठहर जाओ। तुम्हें नीच पुरुषोंके मार्गपर नहीं चलना चाहिये। तुम्हारे लिये तो श्रेष्ठ आचरण ही उचित है। जिसके सिरके बाल बिखर गये हों, जो पीठ दिखाकर भागा जाता हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ रहा हो, शरणमें आया हो और प्राण-रक्षाके लिये प्रार्थना कर रहा हो, जिसने अपने इहियार रज बिये हों, जिसके पास धान न हो, जिसका कवच कट गया हो, अस्त्र-शास्त्र गिर गये या टूट गये हो, ऐसे मोट्टापर उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले शूरवीर शास्त्र नहीं चलाते। तुम भी संसारके बहुत बड़े धीर और सदाचारी हो। युद्ध-धर्मको जानते हो। तुमने उपनिषदोंके गहन ज्ञानमें डुबकी लगायी है। तुम दिव्यास्त्रोंके ज्ञाता हो और उदार हृदयवाले हो। युद्धमें कातंबीयोंको भी मात करते हो। महाबाहो ! जबतक मैं इस फँसे हुए धक्केको ऊपर उठा न सँ, तबतक रुक जाओ। तुम रथपर हो और मैं जमीनपर। साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हँ, इसलिये मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है।'

कर्णकी बात सुनकर रथपर बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णने उससे कहा—'राधानन्दन ! सीमाग्यकी बात है कि इस समय तुम्हें धर्मकी याद आ रही है । प्रायः ऐसा देखनेमें



आता है कि नीच मनुष्य विपत्तिमें फँसनेपर प्रारब्धकी ही निन्दा करते हैं, अपने किये हुए कुकर्मोंकी नहीं । कर्ण ! पाण्डवोंके वनवासका तेरहवाँ वर्ष बीत जानेपर भी जब तुमने उनका राज्य नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? तुम्हारी ही सलाह लेकर जब

राजा दुर्योधनने भीमसेनको जहर मिलाया हुआ भोजन कराया और उन्हें साँपोंसे डँसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? वारणावत नगरमें लाक्षाभवनके भीतर सोये हुए पाण्डवोंको जलानेका जब तुमने प्रवन्ध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था ? भरी सभाके अंदर दुःशासनके व्रशमें पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदीको लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? याद है न ? तुमने द्रौपदीसे कहा था—'कृष्ण ! पाण्डव नष्ट हो गये, सदाके लिये नरकमें पड़ गये; अब तू किसी दूसरे पतिका वरण कर ले ।' यह कहकर जब तुम उसको ओर आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? फिर राज्यके लोभसे तुमने शकुनिकी सलाह लेकर जब पाण्डवोंको द्वारा जूएके लिये बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? अभिमन्यु बालक था और अकेला भी; तो भी तुम अनेक महारथियोंने जब चारों ओरसे घेरकर उसे मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? यदि उस समय यह धर्म नहीं था, तो आज भी धर्मकी दुहाई देकर अधिक बकवाद करनेसे क्या लाभ है ? इस समय यहाँ कितने ही धर्म क्यों न कर डालो, अब जीते-जी तुम्हारा छूटकारा नहीं हो सकता । पुष्करने राजा नलको जूएमें जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रमसे पुनः अपना राज्य भी पाया और यश भी । इसी तरह निर्लोभी पाण्डव भी अपनी मुजाओंके बलसे शत्रुओंका संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे तथा इन महापुरुषोंके हाथसे ही धृतराष्ट्रके पुत्रोंका नाश हो जायगा ।'

भगवान् वासुदेवके ऐसा कहनेपर कर्णने लज्जासे अपना सिर मुका लिया । उससे कोई जवाब देते नहीं बना ।

कर्णका वध और शल्यका दुर्योधनको सान्त्वना देना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर कर्ण धनुष उठाकर बड़े वेगसे अर्जुनके साथ युद्ध करने लगा । उस समय श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—'तुम कर्णको दिव्यास्त्रसे ही घायल करके मार गिराओ ।' भगवान्के ऐसा कहनेपर अर्जुनको कर्णके अत्याचारोंका स्मरण हो आया । फिर तो उन्हें भयंकर क्रोध चढ़ा, उनके रोम-रोमसे आगकी

चिनगारियाँ छूटने लगीं—यह एक अद्भुत बात हुई । यह देख कर्णने अर्जुनपर ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया । अर्जुनने भी ब्रह्मास्त्रसे ही उसके अस्त्रको दवा दिया । इसके बाद उन्होंने कर्णको लक्ष्य करके आग्नेय अस्त्र छोड़ा, जो अपने तेजसे प्रज्वलित हो उठा । किंतु कर्णने उसे वारुणास्त्रसे शान्त कर दिया; साथ ही आकाशमें बादलोंकी घटा घिर आयी,

सम्पूर्ण दिशाओंमें ओंधेरा छा गया । परंतु अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए, उन्होंने कर्णके देखते-देखते वामव्यासमें उन घादलोंको उड़ा दिया ।

तब मृतपुत्रने अर्जुनका वध करनेके लिये जलती हुई आगके समान एक भयंकर बाण हाथमें लिया और ज्यों ही उसे धनुषपर चढ़ाया यथंत, वन और काननोंसहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी । कर्णने उसे छोड़ दिया; उस वज्र-सरीसृह बाणने अर्जुनकी छाती छेद डाली । गहरी चोट लगनेसे उन्हें चक्कर आ गया । हाथ ढीला पड़ गया, गण्डोव धनुष पिसकने लगा और उनका सारा शरीर कांप उठा । इसी बीचमें मोका पारुद कर्ण पहिया निकालनेके लिये रथसे फूट पड़ा । उसने दोनों हाथोंसे पकड़कर पहियेको उपर उठानेकी बहुत कोशिस की, किंतु देववश वह अपने प्रयत्नमें सफल न हो सका ।

इतनेमें अर्जुनको चेत हुआ और उन्होंने यमदण्डके समान भयानक बाण हाथमें उठाया । इसी समय धीकृष्णने कहा—'कर्ण जबतक रथपर नहीं चढ़ जाता, तबतक ही इसका मस्तक काट डालो ।' 'बहुत अच्छा' कहकर अर्जुनने भगवान्की आज्ञा स्वीकार की और कर्णकी ध्वजापर दहकते हुए बाणका प्रहार किया । ध्वजा टूट गयी और उसके गिरनेके साथ ही कौरवोंके यश, धर्मंड, विजय, मनोवाञ्छित कामनाओं तथा हृदयका भी पतन हो गया । उस समय बड़े जोरसे हाहाकार मचा । अब अर्जुन कर्णको मारनेके लिये बड़ी शीघ्रता करने लगे । उन्होंने अपने भाषेसे इन्द्रके वज्र और यमराजके दण्डके समान एक आञ्जलिक नामक बाण निकालकर हाथमें लिया । उसकी लंबाई लगभग ढाई हाथकी थी । उसमें छः पर लगे हुए थे; इसलिये यह बहुत तीव्र गतिसे चलता था । यह बाण सब ओर फैली हुई कालाग्निके समान घोर तथा विनाश और सुदर्शन चपके समान भयंकर था । अर्जुनने उस अस्त्रको गाण्डोव धनुषपर चढ़ाया और उसे खंचकर कहा—'यदि मैंने तप किया हो, गुदजनकोंकी सेवासे प्रसन्न रखा हो, यज्ञ किया हो और हितंपी मित्रोंकी बातें ध्यान देकर सुनी हों तो इस सत्यके प्रभावसे यह बाण मेरे प्रचण्ड शत्रु कर्णका नाश कर डाले ।' ऐसा कहकर उन्होंने यह भयानक बाण कर्णका वध करनेके उद्देश्यसे उसकी ओर छोड़ दिया । उनके हाथसे छूटते ही उस सूर्यके समान तेजस्वी बाणने समस्त दिशाओं और आकाशमें प्रकाश फैला दिया । दिनका तीसरा पहर भीत रहा था । उसी समय अर्जुनने उस बाणने कर्णका मस्तक काट डाला । आञ्जलिकके कटा हुआ वह मस्तक पृथ्वीपर



गिर पड़ा, इसके बाद उसका धड़ भी खूनकी धारा बहाना हुआ शरारागामी हो गया । उस समय कर्णके शरीरसे एक तेज निकलकर आकाशमें फैल गया और फिर सूर्यमण्डलमें विलीन हो गया । इस अद्भुत दृश्यको वहाँ खड़े हुए सब लोगोंने अपनी आँखों देखा था ।

अर्जुनने कर्णको मार गिराया—यह देल पाण्डवपक्षके घोड़ा बड़े जोर-जोरसे शङ्ख बजाने लगे । धीकृष्ण, अर्जुन तथा नकुल-सहदेवने भी हृयमें भरकर अपने-अपने शङ्ख बजाये । सोमकोंने सेनासहित सिंहनाद किया । दूसरे घोड़ाओंने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर ब्राजा ब्रजाना आरम्भ कर दिया । कितने ही राजा आकर अर्जुनसे गले मिले । कितने ही एक दूसरेको गले लगाकर नाचने लगे ।

कर्णके शरीरको खूनसे लथपथ हो पृथ्वीपर पड़ा देल मद्रराज शल्य उस टूटी हुई ध्वजावाले रथके द्वारा ही वहाँसे भाग गये । कर्णकी मृत्यु देल कौरवपक्षके अन्य घोड़ा भी भयभीत होकर भाग चले । उस समय दुर्गोघ्नता क्षीणमें आनू भर आये । यह बाराबार उचट्यास सेने पक्षके घोड़ा कर्णकी लाश देखनेके लिये उचट्यास गये । कोई प्रसन्न था, कोई भयभीत । विषादकी छाया थी तो कोई आश्चर्यमें ही

कर्णकी बात सुनकर रथपर बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णने उससे कहा—‘राधानन्दन ! सौभाग्यकी बात है कि इस समय तुम्हें धर्मकी याद आ रही है । प्रायः ऐसा देखनेमें



आता है कि नीच मनुष्य विपत्तिमें फँसनेपर प्रारब्धकी ही निन्दा करते हैं, अपने किये हुए कुकर्मोंकी नहीं । कर्ण ! पाण्डवोंके वनवासका तेरहवाँ वर्ष बीत जानेपर भी जब तुमने उनका राज्य नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? तुम्हारी ही सलाह लेकर जब

राजा दुर्योधनने भीमसेनको जहर मिलाया हुआ भोजन कराया और उन्हें साँपोंसे डँसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? वारणावत नगरमें लाक्षाभवनके भीतर सोये हुए पाण्डवोंको जलानेका जब तुमने प्रवन्ध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था ? भरी सभाके अंदर दुःशासनके वशमें पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदीको लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? याद है न ? तुमने द्रौपदीसे कहा था—‘कृष्ण ! पाण्डव नष्ट हो गये, सदाके लिये नरकमें पड़ गये; अब तू किसी दूसरे पतिका वरण कर ले ।’ यह कहकर जब तुम उसकी ओर आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? फिर राज्यके लोभसे तुमने शकुनिकी सलाह लेकर जब पाण्डवोंको दुबारा जूएके लिये बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? अभिमन्यु बालक था और अकेला भी; तो भी तुम अनेक महारथियोंने जब चारों ओरसे घेरकर उसे मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? यदि उस समय यह धर्म नहीं था, तो आज भी धर्मकी दुहाई देकर अधिक वकवाद करनेसे क्या लाभ है ? इस समय यहाँ कितने ही धर्म क्यों न कर डालो, अब जीते-जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता । पुष्करने राजा नलको जूएमें जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रमसे पुनः अपना राज्य भी पाया और यश भी । इसी तरह निलोम्बी पाण्डव भी अपनी भुजाओंके बलसे शत्रुओंका संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे तथा इन महापुरुषोंके हाथसे ही धृतराष्ट्रके पुत्रोंका नाश हो जायगा ।’

भगवान् वासुदेवके ऐसा कहनेपर कर्णने लज्जासे अपना सिर झुका लिया । उससे कोई जवाब देते नहीं बना ।

कर्णका वध और शल्यका दुर्योधनको सान्त्वना देना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर कर्ण धनुष उठाकर बड़े वेगसे अर्जुनके साथ युद्ध करने लगा । उस समय श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—‘तुम कर्णको दिव्यास्त्रसे ही घायल करके मार गिराओ ।’ भगवान्के ऐसा कहनेपर अर्जुनको कर्णके अत्याचारोंका स्मरण हो आया । फिर तो उन्हें भयंकर क्रोध चढ़ा, उनके रोम-रोमसे आगकी

चिनगारियाँ छूटने लगीं—यह एक अद्भुत बात हुई । यह देख कर्णने अर्जुनपर ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया । अर्जुनने भी ब्रह्मास्त्रसे ही उसके अस्त्रको दबा दिया । इसके बाद उन्होंने कर्णको लक्ष्य करके आग्नेय अस्त्र छोड़ा, जो अपने तेजसे प्रज्वलित हो उठा । किंतु कर्णने उसे वारुणास्त्रसे शान्त कर दिया; साथ ही आकाशमें बादलोंकी घटा घिर आयी,

सम्पूर्ण दिशाओमें अंधेरा छा गया । परंतु अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए, उन्होंने कर्णके देखते-देखते बायव्यास्त्रसे उन बादलोंको उड़ा दिया ।

तब मृतपुत्रने अर्जुनका बंध करनेके लिये जलती हुई आगके समान एक भयंकर बाण हाथमें लिया और ज्यो ही उसे धनुषपर चढ़ाया पर्वत, धन और काननोमहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी । कर्णने उसे छोड़ दिया; उस पञ्च-सरीखे बाणने अर्जुनकी छाती छेद डाली । गहरी घोट लगनेसे उन्हें चक्कर आ गया । हाथ ढीला पड़ गया, गाण्डोव धनुष तिसकने लगा और उनका सारा शरीर कांप उठा । इसी बीचमें मोका पाकर कर्ण पहिया निकालनेके लिये रथसे कूद पड़ा । उसने दोनों हाथोंसे पकड़कर पहियेको ऊपर उठानेकी बहुत कोशिश की, किंतु देववश वह अपने प्रयत्नमें सफल न हो सका ।

इतनेमें अर्जुनको चेत हुआ और उन्होंने यमदण्डके समान भयानक बाण हाथमें उठाया । इसी समय धीकृष्णने कहा—'कर्ण जबतक रथपर नहीं चढ़ जाता, तबतक ही इसका मस्तक काट डालो ।' 'बहुत अच्छा' कहकर अर्जुनने भगवान्की आज्ञा स्वीकार की और कर्णकी ध्वजापर दहकते हुए बाणका प्रहार किया । ध्वजा टूट गयी और उसके गिरनेके साथ ही कीरबोंके धाग, धमंड, विजय, मनोवाञ्छित कामनाओं तथा हृदयका भी पतन हो गया । उस समय बड़े जोरसे हाहाकार मचा । अथ अर्जुन कर्णको मारनेके लिये बड़ी शीघ्रता करने लगे । उन्होंने अपने भाथेसे इन्द्रके वज्र और यमराजके दण्डके समान एक आञ्जलिक नामक बाण निकालकर हाथमें लिया । उसकी लंबाई लगभग ढाई हाथकी थी । उसमें छः पर लगे हुए थे; इसलिये वह बहुत तीव्र गतिसे चलता था । वह बाण सब ओर फैली हुई कालाग्निके समान घोर तथा पिनाक और सुवसान चक्रके समान भयंकर था । अर्जुनने उस अस्त्रको गाण्डोव धनुषपर चढ़ाया और उसे खंचकर कहा—'यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनोको सेवासे प्रसन्न रखता हो, धन किया हो और हितंथी मित्रोकी बातें ध्यान देकर मुनी हों तो इस सत्यके प्रभावसे यह बाण मेरे प्रचण्ड शत्रु कर्णका नाश कर डाले ।' ऐसा कहकर उन्होंने वह भयानक बाण कर्णका बंध करनेके उद्देश्यसे उसकी ओर छोड़ दिया । उनके हाथसे छूटते ही उस सूर्यके समान तेजस्वी बाणने समस्त दिशाओं और आकाशमें प्रकाश फैला दिया । दिनका तोसरा पहर बीत रहा था । उसी समय अर्जुनने उस बाणने कर्णका मस्तक काट डाला । आञ्जलिकसे कटा हुआ वह मस्तक पृथ्वीपर



गिर पड़ा, इसके बाद उसका धड़ भी खूनकी धारा बहाना हुआ धरासायी हो गया । उस समय कर्णके शरीरसे एक तेज निकलकर आकाशमें फैल गया और फिर सूर्यमण्डलमें विलीन हो गया । इस अद्भुत दृश्यको यहाँ छोड़े हुए सब लोगोंने अपनी आँखों देखा था ।

अर्जुनने कर्णको मार गिराया—यह देख पाण्डवपक्षके योद्धा बड़े जोर-जोरसे शत्रु घजाने लगे । धीकृष्ण, अर्जुन तथा नकुल-सहदेवने भी हथमें भरकर अपने-अपने शत्रु बनाये । सोमकोने सेनासहित सिंहनाद किया । दूसरे योद्धाओंने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर बाना बजाना आरम्भ कर दिया । कितने ही राजा आकर अर्जुनसे गले मिले । कितने ही एक दूसरेको गले लगाकर नाचने लगे ।

कर्णके शरीरको खून्धे सयपय हो पृथ्वीपर पड़ा देख मद्रराज शल्य उस टूटो हुई ध्वजावाले रथके द्वारा ही वहाँसे भाग गये । कर्णकी मृत्यु देख कीरवपक्षके अन्य योद्धा भी भयभीत होकर भाग चले । उस समय दुयोधनकी आँखोंमें आँसू भर आये । वह बारंबार उच्छ्वास सेने लगा । दोनों पक्षके योद्धा कर्णकी लाश देखनेके लिये उसे घेरकर खड़े हो गये । कोई प्रसन्न था, कोई भयभीत । किसीके चेहरेपर विषादकी छाया थी तो कोई आश्चर्यमें ही डूबा हुआ



सारांश यह कि जिनकी जैसी प्रकृति थी, वे उसी प्रकार हर्ष या शोकमें मग्न हो रहे थे ।

कर्णके मरनेपर भीमने भयंकर सिंहनाद करके पृथ्वी और आकाशको फँपा दिया । वे धृतराष्ट्रके पुत्रोंको डराते हुए ताल ठोंककर नाचने-फूदने लगे । सोमक, सृञ्जय तथा दूसरे क्षत्रिय भी अत्यन्त हर्षमें भरकर एक दूसरेको छातीसे लगाते हुए शङ्खनाद करने लगे । उस समय मद्रराज शल्यका चित्त ठिकाने नहीं था, वे दुर्योधनके पास पहुँचकर आँसू बहाते हुए बड़े दुःखके साथ बोले—'राजन् ! तुम्हारी सेनाके हाथी-घोड़े, रथ और घोड़ा नष्ट-भ्रष्ट हो गये, मानो उनपर यमराजका आधिपत्य हो गया है । आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था । कर्णने चढ़ाई करके श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा अन्य शत्रुओंको प्रायः कायूमें कर लिया था; किंतु कुछ फल नहीं हुआ । निश्चय

ही देव पाण्डवोंके अधीन होकर काम कर रहा है । वह उनकी तो रक्षा करता है और हमारा नाश । यही कारण है कि तुम्हारे अर्थकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाले सभी वीर शत्रुओंके हाथसे बलपूर्वक मारे गये । तुम्हारी सेनाके प्रमुख योद्धा इन्द्र, यम और कुबेरके समान प्रभावशाली थे । उनमें पराक्रम, शौर्य, बल, तेज तथा और भी बहुत-से उत्तम गुण मौजूद थे । वे एक प्रकारसे अवध्य थे; तो भी उन्हें पाण्डव-योद्धाओंने रणमें मार डाला । अतः भारत ! तुम शोच न करो । यह सब प्रारब्धका खेल है । सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा जानकर धैर्य धारण करो ।'

मद्रराजकी ये बातें सुनकर और मन-ही-मन अपने अन्यायोंका भी स्मरण करके दुर्योधन बहुत उदास हो गया । उसकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं देती थी । दुःखसे अत्यन्त पीड़ित होकर वह चारोंवार लंबी उसातें भरने लगा ।

भीम और अर्जुन आदिके भयसे दुर्योधनके रोकनेपर भी कौरव-सेनाका भागना तथा दोनों ओरकी सेनाओंका शिविरमें जाना

सृञ्जय कहते हैं—महाराज ! उस समय कौरव-सैनिक भीमसेनके भयसे व्याकुल होकर भाग रहे थे । उनकी यह अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उठा और अपने

सारथिसे बोला—'सूत ! तुम धीरे-धीरे घोड़ोंको आगे बढ़ाओ । जब हाथमें धनुष लेकर मैं अपनी सम्पूर्ण सेनाके पीछे खड़ा रहूँगा, उस समय अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर

सकते। यदि वे मृगते लड़ने आयेंगे तो निरसंदेह उन्हें मार डालूंगा। आज मैं अर्जुन, श्रीकृष्ण तथा धर्मडी भीमसेनको बचै-रुचे अन्य शत्रुओंके साथ भीतके घाट उतारकर कर्णके श्रेष्ठसे मुक्त होऊंगा।'

दुर्योधनको यह शूरवीरोंके योग्य बात सुनकर साराधिन घोंड़ोंको धीरे-धीरे आगे बढ़ाया। आपकी ओरसे युद्धके लिये पच्चीस हजार पैदल सड़के थे, उन्हें भीमसेन और धृष्टद्युम्नने अपनी चतुरङ्गिणी सेनासे घेर लिया और बाणोंसे मारना आरम्भ किया। वे भी भीम और धृष्टद्युम्नका डटकर मुकाबला करने लगे। उस समय भीमसेन शीघ्रमें भरकर हाथमें गदा लिये रथसे उतर पड़े और उन सबके साथ युद्ध करने लगे। भीमसेन युद्धधर्मका पालन करनेवाले थे, इसीलिये स्वयं रथपर बैठकर उन्होंने उन पैदलोंके साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबलका पूरा भरोसा था। गदा हाथमें लिये बाजकी तरह विचरते हुए महाबली भीमने आपके पच्चीसों हजार योद्धाओंको मार गिराया। एक ओरसे अर्जुनने रथियोंकी सेनापर धावा किया। दूसरी ओर नकुल, सहदेव



तथा सात्यकि—ये तीनों मिलकर दुर्योधनकी सेनाका संहार करते हुए शकुनिके ऊपर जा चढ़े। शकुनिके बहुत-से धुइयाधारोंको अपने तीखे बाणोंसे मारकर ये उसकी ओर भी दौड़े। फिर तो उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उधर,

अर्जुनको आते देख आपके योद्धा भयके मारे भागने लगे। बहुतोंके रथ टूट गये, बहुत-से साथियोंको मारते अत्यन्त घायल हो गये; इस प्रकार अर्जुनके भी हाथसे मारे जाकर पच्चीस हजार योद्धा कालके गालमें समा गये।

उधर, धृष्टद्युम्नके डरसे आपके सैनिकोंमें भगदड़ पड़ गयी। चैकितान, शिखण्डी और द्रौपदीके पुत्र आपकी बड़ी भारी सेनाका संहार करके शङ्क बजाने लगे। उन्होंने आपके भागने हुए सैनिकोंका भी पीछा किया। इसके बाद अर्जुनने पुनः रथ-सेनापर चढ़ाई की और अपने विश्वविद्यात पाण्डव-धनुषकी टंकार करते हुए उन्होंने सहसा सबको बाणोंसे ढक दिया। पृथ्वीसे धूल उठी और चारों ओर घना अन्धकार छा गया। किसीको कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस समय कौरव-सेनामें फिरसे भगदड़ पड़ी—यह देख आपके पुत्र दुर्योधनने शत्रुओंपर धावा किया और पाण्डवोंको युद्धके लिये सलकारा। पाण्डव-सेना दुर्योधनपर टूट पड़ी। उसने भी क्रोधमे भरकर संकड़ों और हजारों योद्धाओंको यमलोक पठा दिया। उस युद्धमें हमलोगोंने दुर्योधनका अद्भुत पुरुषार्थ देखा, यह अकेला होनेपर भी समस्त पाण्डव-सेनासे युद्ध कर रहा था।

दुर्योधनने जब अपनी सेनापर दृष्टिपात किया तो सबको दुखी पाया; तब उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा—'योद्धाओ! मैं जानता हूँ तुम भयसे काँप रहे हो; परंतु मेरे देखनेमें ऐसा कोई भी देश नहीं है, जहाँ तुमलोग भागकर जाओ और यहाँ पाण्डवोंसे तुम्हारी जान बच जाय। ऐसी वशामें भागनेसे क्या लाभ है? अब शत्रुओंके पास थोड़ी-सी सेना रह गयी है, श्रीकृष्ण और अर्जुन भी खूब घायल हो चुके हैं, आज मैं इन सब लोगोंको मार डालूंगा। हमलोगोंकी विजय निश्चित है। जितने क्षत्रिय यहाँ उपस्थित हैं, सब ध्यान देकर सुन लें—जब भीत शूरवीर और कायर दोनोंकी ही मारती है तो मेरे-जैसा क्षत्रियव्रतका पालन करनेवाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा, जो युद्ध नहीं करेगा? हमारा शत्रु भीमसेन थोघमें भरा हुआ है; यदि भागोगे तो उसके वशमें पड़कर तुम्हें प्राणोंसे हाथ धोना पड़ेगा। इसलिये बाप-दादोंके आचरण किये हुए क्षत्रिय-धर्मका त्याग न करो। क्षत्रियके लिये युद्धमें पीछे दिखाना मारनेसे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है तथा युद्धधर्मके पालनसे बढ़कर स्वर्गका दूसरा कोई मार्ग नहीं है। संप्राममें मरा हुआ योद्धा तुरंत उत्तम लोक प्राप्त करता है।'

आपका पुत्र इस प्रकार ध्याएयान देता ही रह गया, किंतु घायल सैनिकोंमेंसे किसीने उसकी बातपर ध्यान नहीं दिया। सबके-सब चारों ओर भाग गये। उस समय



सारांश यह कि जिनकी जैसी प्रकृति थी, वे उसी प्रकार हर्ष या शोकमें मग्न हो रहे थे ।

कर्णके मरनेपर भीमने भयंकर सिंहनाद करके पृथ्वी और आकाशको कँपा दिया । वे धृतराष्ट्रके पुत्रोंको डराते हुए ताल ठोंककर नाचने-कूदने लगे । सोमक, सृञ्जय तथा दूसरे क्षत्रिय भी अत्यन्त हर्षमें भरकर एक दूसरेको छातीसे लगाते हुए शङ्खनाद करने लगे । उस समय मद्रराज शल्यका चित्त ठिकाने नहीं था, वे दुर्योधनके पास पहुँचकर आँसू बहाते हुए बड़े दुःखके साथ बोले—'राजन् ! तुम्हारी सेनाके हाथी-घोड़े, रथ और योद्धा नष्ट-भ्रष्ट हो गये, मानो उनपर यमराजका आधिपत्य हो गया है । आज कर्ण और अर्जुन में जँसा युद्ध हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था । कर्णने चढ़ाई करके श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा अन्य शत्रुओंको प्रायः काबूमें कर लिया था; किंतु कुछ फल नहीं हुआ । निश्चय

ही दैव पाण्डवोंके अधीन होकर काम कर रहा है । वह उनको तो रक्षा करता है और हमारा नाश । यही कारण है कि तुम्हारे अर्थकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाले सभी वीर शत्रुओंके हाथसे बलपूर्वक मारे गये । तुम्हारी सेनाके प्रमुख योद्धा इन्द्र, यम और कुबेरके समान प्रभाववाली थे । उनमें पराक्रम, शौर्य, बल, तेज तथा और भी बहुत-से उत्तम गुण मौजूद थे । वे एक प्रकारसे अवध्य थे; तो भी उन्हें पाण्डव-योद्धाओंने रणमें मार डाला । अतः भारत ! तुम शोच न करो । यह सब प्रारब्धका खेल है । सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा जानकर धैर्य धारण करो ।'

मद्रराजकी ये बातें सुनकर और मन-ही-मन अपने अन्यायोंका भी स्मरण करके दुर्योधन बहुत उदास हो गया । उसकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं देती थी । दुःखसे अत्यन्त पीड़ित होकर वह बारंबार लंबी उसासों भरने लगा ।

भीम और अर्जुन आदिके भयसे दुर्योधनके रोकनेपर भी कौरव-सेनाका भागना तथा दोनों ओरकी सेनाओंका शिविरमें जाना

सृञ्जय कहते हैं—महाराज ! उस समय कौरव-सैनिक भीमसेनके भयसे व्याकुल होकर भाग रहे थे । उनकी यह अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उठः और अपने

सारथिसे बोला—'सूत ! तुम धीरे-धीरे घोड़ोंको आगे बढ़ाओ । जब हाथमें धनुष लेकर मैं अपनी सम्पूर्ण सेनाके पीछे खड़ा रहूँगा, उस समय अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर

घोषसे पृथ्वी, आकाश तथा विशालें गुँज उठीं। वह शङ्खनाद सुनते ही समस्त कीरव सैनिक मद्रराज शल्य तथा राजा दुर्योधनकी रणभूमिमें ही छोड़कर भाग गये। उस समय सब लोभाने एकत्र होकर श्रीकृष्ण और अर्जुनका सम्मान किया। वे दोनों उदित हुए सूर्य और चन्द्रमाकी भाँति गोमा पा रहे थे। उनके पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं थी, वे अपने शरीरसे बाण निकालकर मित्रमण्डलीसे घिरे हुए आनन्दपूर्वक अपनी छावनीमें जा पहुँचे। जब कर्ण मारा गया था उस समय देवता, गन्धर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, पक्ष तथा नागोंने विजय एवं अभ्युदयकी शुभ कामना प्रकट करते हुए उन दोनोंकी पूजा की। समीने उनके गुणोंकी प्रशंसा की।

कर्णकी मृत्युके पश्चात् जब कीरव-पक्षके हजारों घोड़ा मयमीत होकर भाग गये तो आपके पुत्रने राजा शल्यकी सलाह मानकर युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी और सेनाको एकत्रित कर पाँटे लौटाया। मरनेसे बचे हुई नारायणी सेनाके साथ कृतवर्मा, हजारों गान्धारिके साथ घाकुनि तथा हार्षिकोंकी सेनाके साथ कृपाचार्य भी शिविरकी ओर लौटे। अश्वत्यामा भी पाण्डवोंकी विजय देखकर बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ छावनीकी ओर ही चल दिया। बचे हुए संशप्तकों-सहित युशर्मा और टूटी ध्वजावाले रथके साथ राजा शल्य भी डरते एवं सजाते हुए छावनीकी ओर चले। कर्णकी मृत्यु देखकर समस्त कीरव भयसे व्याकुल होकर काँप रहे थे, उनके शरीरसे खूनकी धारा बह रही थी; अतः सब-के-

सब उद्दिग्ध होकर भाग गये। अब उन्हें अपने जीवन और राज्यकी आशा न रही। दुर्योधन दुःख और शोकसे डूब रहा था, वह धड़े पलसे सबको एकत्र करके छावनीमें ले आया। राजाकी आज्ञा मान समी सैनिकोंने शिविरमें आकर विधाम किया। उस समय सबका चेहरा फीका पड़ गया था।



कर्णवधके समाचारसे प्रसन्न हुए युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा, राजा धृतराष्ट्र और गान्धारीका शोक तथा कर्णपर्वके श्रवणका माहात्म्य

सञ्जय कहते हैं—राजन्! इस प्रकार जब कर्ण मारा गया और कीरव-सेना भाग धड़ी हुई तो भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनकी छातीसे लगाकर बड़े हर्षके साथ कहा—'पार्य! इन्द्रने वृषासुरको मारा था और तुमने कर्णको मार गिराया है। आजसे संसारके लोग वृषासुर-वधकी तरह कर्ण-वधकी कथा कहे-सुनेंगे। तुम बहुत दिनोंसे युद्धमें कर्णका वध करना चाहते थे, आज वह अभीष्ट पूरा हुआ; अतः धर्मराजसे यह शुभ समाचार बताने तुम उनसे उम्हण हो जाओ। तुममें और कर्णमें जब महासंग्राम छिड़ा हुआ था, उस समय वे भी युद्ध देखनेके लिये आये थे; मगर बहुत अधिक घायल

होनेके कारण वेरतक यहाँ ठहर नहीं सके, फिर छावनीमें ही चल गये। अतः हमें उन्हींके पास चलना चाहिये।'

अर्जुनने 'बहुत अच्छा' कहकर आज्ञा स्वीकार की; फिर भगवान्ने अपना रथ उधर ही मोड़ दिया। छावनीपर पहुँचकर वे अर्जुनकी साथ ले राजा युधिष्ठिरसे मिले। राजा उस समय सोनेके पलंगपर सो रहे थे। श्रीकृष्ण और अर्जुनने प्रसन्नतापूर्वक उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उन दोनोंकी प्रसन्नता देख कर्णकी मरा क्षमकर युधिष्ठिर उठ बैठे और आनन्दान्वितरूपसे आँसु बहाने लगे। फिर उन दोनोंकी छातीसे लगाकर मिले और बारंबार युद्धका समाचार पूटने



मद्राज शल्यने दुर्योधनसे कहा—‘राजन् ! जरा इस रण-भूमिकी ओर तो दृष्टि डालो, कितने मनुष्यों और घोड़ोंकी लाशें बिछी हुई हैं, पर्वताकार गजराज वाणोंसे छिन्न-भिन्न



होकर मरे पड़े हैं और ये शूरवीर सैनिक नाना प्रकारके भोग, वस्त्राभूषण, मनोरम सुख तथा शरीरको प्रीत्याग कर धर्मकी पराकाष्ठाका पालन करते हुए अपने घरके साथ ही स्वर्गादि लोकोंमें पहुँच गये हैं। दुर्योधन ! अब ये सूर्यदेव अस्ताचलको जाना ही चाहते हैं, तुम भी छावनीकी ओर लौट चलो !’

राजा शल्य इतना कहकर चुप हो गये। उनका चित्त शोकसे व्याकुल हो रहा था। उधर दुर्योधनकी भी बड़ी दयनीय अवस्था थी, वह आतं होकर ‘हा कर्ण ! हा कर्ण !!’ पुकार रहा था। उसकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह रही थी। अश्वत्थामा तथा दूसरे-दूसरे राजालोग आकर उसे वारंवार धीरज बँधाते और रक्तसे भीगी हुई रणभूमिको देखते हुए छावनीकी ओर लौट जाते थे। समस्त कौरव सूतपुत्रके वधसे दुखी थे, अतः ‘हा कर्ण ! हा कर्ण !!’ पुकारते हुए बड़ी तेजीके साथ शिविरकी ओर लौट गये। देवता और ऋषि भी अपने-अपने स्थानको चल दिये। नभचर और थलचर जीव अपनी-अपनी मौजके अनुसार आकाश और पृथ्वीके स्थानोंमें चले गये। दर्शक मनुष्य कर्ण और अर्जुनका अद्भुत संग्राम देखकर आश्चर्यमग्न हो दोनोंकी प्रशंसा करते हुए गये।

महाराज ! उत्तम याचकोंके माँगनेपर जिसने सदा यही कहा कि ‘मैं दूंगा,’ ‘मेरे पास नहीं है’ ऐसी बात जिसके मुँहसे कभी निकली ही नहीं, ऐसा सत्पुरुष कर्ण द्वैरय युद्धमें अर्जुनके हाथसे मारा गया। जिसका सारा धन ब्राह्मणोंके अधीन था, ब्राह्मणोंके लिये जो अपना प्राणतक देनेमें आनाकानी नहीं करता था, जो महान् दानी और महारथी था, वही कर्ण अब आपके पुत्रोंकी विजयकी आशा, भलाई और रक्षा—सब कुछ साथ लेकर स्वर्गको चला गया। कर्णके मारे जानेपर जब सूर्य अस्त हो गया तो मंगल तथा बुध वक्रगतिसे उदित हुए, पृथ्वीमें गडगड़ाहट होने लगी, चारों दिशाओंमें आग लग गयी, उनमें धुआँ छा गया, समुद्रोंमें तूफान आ गया, गर्जनाएँ होने लगीं, समस्त प्राणी व्यथित हो उठे और बृहस्पति रोहिणीको घेरकर चन्द्रमा तथा सूर्यके समान तेजस्वी रूपमें प्रकट हुए। उस समय पृथ्वी काँप उठी, उल्कापात होने लगा तथा आकाशमें खड़े हुए देवता सहसा हाहाकार कर उठे।

इस प्रकार कर्णको मारनेके पश्चात् प्रसन्नतासे भरे हुए श्रीकृष्ण तथा अर्जुनने सोनेकी जालीसे मड़े हुए श्वेत शङ्ख हाथोंमें लेकर उन्हें ओठोंसे लगाया और एक ही साथ बजाना आरम्भ किया। उनकी आवाज सुनकर शत्रुओंका हृदय विदीर्ण होने लगा। पाञ्चजन्य और देवदत्तके गम्भीर



कारण उन्हें किसी भी बातकी सुध न रही। विदुर और सञ्जयके बहुत आशवासन देनेपर प्रारब्ध और भवितव्यताकी ही प्रधान भानकर वे चुपचाप बैठे रह गये।

जो मनुष्य कर्ण और अर्जुनके इस युद्ध-यज्ञका स्वाध्याय करता है अथवा इसे सुनता है, उसे विधिवन् किये हुए यज्ञका फल प्राप्त होता है। सनातन भगवान् विष्णु यज्ञस्वरूप हैं; अग्नि, वायु, चन्द्रमा और सूर्य भी यज्ञके ही रूप हैं। अतः जो मनुष्य दोय-दृष्टिका त्याग करके इस युद्ध-यज्ञका वर्णन सुनता या पढ़ता है, वह समस्त लोकोमें पहुँच सकनेवाला और सुखी होता है तथा उसके ऊपर भगवान् विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकरजी संतुष्ट होते हैं। इस पर्वके स्वाध्यायसे ब्राह्मणको वेद-पाठका फल मिलता है, सत्रियोंको बल तथा युद्धमें विजयकी प्राप्ति होती है, वंश्योंका धन बढ़ता है और शूद्र नीरोग एवं स्वास्थ्यसम्पन्न होते हैं। इसमें सनातन भगवान् विष्णुकी महिमाका गान हुआ है, इसलिये इसके पाठसे मनुष्यकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और वह सुखी होता है। लगातार एक वर्षतक बृहद्गोसंहिता कपिला गौत्रोंका दान करनेसे जो फल मिलता है, वह कर्णपर्वके एक बार सुननेमात्रसे प्राप्त हो जाता है।

॥ कर्णपर्व समाप्त ॥

लगे । तब भगवान् श्रीकृष्णने रणभूमिमें जो कुछ घटना घटित हुई थी, सब कह सुनायी; अन्तमें कर्णके मरनेकी भी बात बतायी । इसके बाद भगवान् कुछ-कुछ मुसकराते हुए हाथ जोड़कर बोले—‘महाराज ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि आप, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल-सहदेव भी कुशलते हैं । महारथी कर्ण मारा गया और आपकी विजय तथा अभिवृद्धि हो रही है—यह भी बड़े आनन्दकी बात है । आज सूतपुत्रके सारे शरीरमें बाण चुभे हुए हैं और वह भूतल-पर पड़ा हुआ है; इस अवस्थामें आप अपने शत्रुको चलकर देखिये । महाबाहो ! अब आप पृथ्वीका अकण्ठक राज्य भोगिये ।’

भगवान् श्रीकृष्णका वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले—‘देवकीनन्दन ! यह बड़े आनन्दकी बात हुई । आप सारथि थे, तभी अर्जुन कर्णको मार सके हैं । यह आपकी बुद्धिका ही प्रसाद है, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है ।’ यह कहकर युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी दाहिनी बांह पकड़ ली । फिर दोनोंसे कहा—‘नारदजीने मुझे बताया था कि अर्जुन और श्रीकृष्ण पुरातन नर-नारायण ऋषि हैं ।’ तत्त्वज्ञानी श्रीव्यासजीने भी कई बार इस बातकी चर्चा की थी । कृष्ण ! आपकी ही कृपासे ये पाण्डुनन्दन अर्जुन शत्रुओंका सामना करके विजय पाते गये हैं । जिस दिन आपने युद्धमें अर्जुनका सारथि होना स्वीकार किया उसी दिन यह निश्चय हो गया था कि हमारे पक्षकी विजय ही होगी, पराजय नहीं । जब भीष्म, द्रोण तथा कर्ण—जैसे वीर आपकी बुद्धिसे मारे जा चुके हैं तो बाकी लोगोंको, जो उन्हींके अनुयायी हैं, मैं मरे हुएके समान ही मानता हूँ ।’

यों कहकर राजा युधिष्ठिर सोनेसे सजाये हुए रथपर बैठकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके साथ रणभूमि देखनेको चले । वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने देखा कि नररत्न कर्ण सैकड़ों बाणोंसे छिदा हुआ पृथ्वीपर पड़ा है । उस समय सुगन्धित तेलसे भरकर हजारों सोनेके दीपक जलाये गये । उन्हींके प्रकाशमें सब लोगोंने कर्णके शरीरपर दृष्टिपात किया । उसका कवच छिन्न-भिन्न हो गया था और शरीर बाणोंसे विदीर्ण हो चुका था । कर्णको पुत्रसहित मरा हुआ देख राजा युधिष्ठिर पुनः श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे—‘गोविन्द ! आप वीर और विद्वान् होनेके साथ ही मेरे स्वामी हैं; आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही मैं भाइयोंसहित राजा हो गया । राधानन्दन कर्णको मारा गया सुनकर दुरात्मा दुर्योधन अब राज्य और जीवन दोनोंसे निरास हो जायगा । पुरुषोत्तम ! आपकी कृपासे हमलोग



कृतार्थ हो गये । बड़ी खुशीकी बात है कि गाण्डीवधारी अर्जुनकी विजय हुई ।’

इस प्रकार राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा की । उस समय नकुल, सहदेव, भीमसेन, सात्यकि, धृष्टद्युम्न और शिखण्डीने तथा पाण्डव, पाञ्चाल और सृञ्जय योद्धाओंने ‘महाराजका अभ्युदय हो’ ऐसा कहकर युधिष्ठिरका सम्मान किया । फिर श्रीकृष्ण और अर्जुनका गुणगान करते हुए वे बड़ी प्रमत्तताके साथ शिविरकी ओर चले गये । राजा धृतराष्ट्र ! आपके ही अन्यायसे यह रोमाञ्चकारी संहार हुआ है; अब क्यों बारंबार सोच कर रहे हैं ?

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! यह अप्रिय समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र भूच्छित होकर जड़से कटे हुए वृक्षकी भाँति जमीनपर गिर पड़े । इसी तरह दूरतक सोचनेवाली गान्धारी देवी भी पछाड़ खाकर गिरों और बहुत विलाप करती हुई कर्णकी मृत्युके शोकमें डूब गयीं । उस समय गान्धारीकी विदुरजीने और राजाको सृञ्जयने संभाला । फिर दोनों मिलकर धृतराष्ट्रको समझाने-बुझाने लगे और राजमहलकी स्त्रियोंने आकर गान्धारीको उठाया । राजाको बड़ी व्यथा हुई, उनकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी, वे चिन्ता और शोकमें डूब गये । मोहाच्छन्न हो जानेके

मुनो और अच्छा लगे तो उत्तरे अनुसार काम करो ।
पिनाहू भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ,
तुम्हारे बहूतने भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण—ये सब



तो मारे जा चुके; अब कौन बच गया है, जिसका हम
आश्रय ग्रहण करें ? जिन वीरोंपर युद्धका भार रखकर
हम राज्य पानेकी आशा करते थे, वे तो शरीर छोड़कर
वेदेवताओंकी गतिको प्राप्त हो गये । हमने बहूतने
राजाओंकी शरवाणर अपने गुणवान् महारथियोंकी छो
दिया है । उनके बिना अब हम अकेले रह गये हैं, ऐसी
दरामें हमें दौलतापूर्ण वर्तार करना पड़ेगा । जब सब लोग
जीवित थे, तब भी अर्जुन किसीके द्वारा परास्त नहीं हुए ।
कृष्ण-जैसे सारथिके होते हुए उन्हें देवता भी नहीं जीत सकते ।
उनकी धाररकी चिह्नवाली ध्वजा देखकर हमारी विशाल
सेना चर्रा उठनी है । भीमसेनका सिंहनाद, पाञ्चजन्यकी
भयंकर आवाज और गाण्डीव धनुषकी टंकार सुनकर
हमलोगोंका दिल बँट जाता है । अर्जुनके हाथमें डोलता
हुआ मुवगंम जटित महान् धनुष चारों दिशाओंमें इन प्रकार
दितायो जाता है, जैसे भेषकी घटाओंमें विजली । जिस प्रकार
यादुकी प्रेरणासे बादल उड़ते फिरने हैं वैसे ही भगवान्
श्रीकृष्ण द्वारा हक्रे हुए घोड़े, जो सुनहले सारंगे सजे रहते
हैं, अर्जुनकी सवारीमें दौड़ते हैं । अर्जुन अरवविद्यामें
कुशल हैं; उन्होंने तुम्हारी सेनाको उमो प्रकार भस्म किया है,

जैसे भयंकर आग धानकी डेरोंको जला डालनी है । वे
धनुषकी टंकारसे हमारे घोड़ाओंको उती प्रकार भयभीत
करते हैं, जैसे सिंह भूगोंको । आज इस भयंकर संप्रामको
प्रारम्भ हुए सत्रह दिन बीत गये । महासागरमें हवाके
घपड़े टाकर उगमगाती हुई नौकाकी तरह आपकी सेनाको
अर्जुनने कँपा डाला है । उस दिन जयद्रथको अर्जुनके बाणोंका
निशाना बनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण बहूा चला गया
या ? अपने अनुयायियोंके साथ आचार्य द्रोण, भैं, तुम,
कृतवर्मा तथा भाद्रयोसहित दुःशासन—ये लोग बहूा गये
थे ? सब वहाँ तो थे, पर अर्जुनपर किसीका जोर चला ?
तुम्हारे सम्बन्धियों, भाद्रयों, सहायकों तथा मामाओंको
उन्होंने अपने पराक्रमसे जीत लिया और तुम्हारे देखते-देखते
सबके सिरपर पर रखकर जयद्रथको मार डाला ! अब
हम किसका शरोसा करें ? वहाँ कौन ऐसा पुरुष है, जो
अर्जुनपर विजय पा सकेगा ? उनके पास नाना प्रकारके
दिव्य अस्त्र हैं । उनके पाण्डवकी टंकार सुनकर हमलोगोंका
धैर्य छूट जाता है । जैसे चन्द्रमाके बिना रात्रि अन्धकारमयी
दिलायी देती है, उसी प्रकार हमारी यह सेना सेनापतिके
मारे जानेसे शोहीन हो रही है । सभी घोड़ा घबरामे हुए
हैं । उधर सात्यकि और भीमसेनका जो योग है, वह समस्त
पर्वतोंको विदीर्ण कर सकता है, समुद्रोंको मुखा स्रता है ।
राजन् ! छूत-साममें भीमसेनने जो घात बहूी धो, उसे
उन्होंने सत्य करके दिखा दिया; आगे भी वे ऐसा हो
करेंगे । पाण्डव सज्जन हैं, किन्तु तुमलोगोंने उनके साथ
अकारण ही बहूतने अनुचित व्यवहार किये; उन्हींका
अब फल मिल रहा है । तुमने यत्न करके सारे जगतके
लोगोंको अपनी रक्षाके लिये एकत्रित किया था, किन्तु
तुम्हारा ही जीवन संदेहमें पड़ा हुआ है ! दुर्घोषधन ! अब
तुम अपनेको बचाओ । कृष्णसिंहजीकी बतायी हुई यह
नीति है कि 'जब अपना बल कम अथवा बराबर जान पड़े तो
शत्रुके साथ संधि कर लेनी चाहिये । सड़ाई तो उस धन
छेड़नी चाहिये, जब अपनी शक्ति शत्रुसे बढ़-चढ़कर हो ।'
यन और शक्तिये हम पाण्डवोंमें कम हो गये हैं, अतः मेरी
रायमें तो अब उनसे संधि कर सेना ही उचित है । जो
राजा अपनी भलाईकी बात नहीं जानता और थोड़े
पुरुषोंका अपमान किया करता है, वह शीघ्र ही राज्यसे
छूट हो जाता है; उसका भला भी नहीं होता । यदि राजा
युधिष्ठिरके सामने झुकनेमें हमलोग राज्य या जायें तो
इसमें अपनी भलाई है । मूलतत्वाका हार जानेमें कोई
लाम नहीं है । राजा धृतराष्ट्र और भगवान् श्रीकृष्णके
कहनेमें युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं । श्रीकृष्ण

संक्षिप्त महाभारत

शल्यपर्व

धृतराष्ट्रका विषाद, कृपाचार्यका दुर्योधनको संधिके लिये समझाना, किंतु दुर्योधनका युद्धके लिये ही निश्चय करना


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! कौरव-सेनाका संचालन करनेवाले सूत्रपुत्रके मारे जानेपर मेरे पुत्रोंने क्या किया ? क्या कारण है कि मेरे पुत्र जिस-जिसको सेनापति बनाते हैं, उसी-उसीको पाण्डवलोग थोड़े ही समयमें मार डालते हैं ? तुम लोगोंके देखते-देखते भीष्म मारे गये, द्रोणकी भी यही दशा हुई और अब प्रतापी कर्ण भी जाता रहा । महात्मा विदुरने मुझसे पहले ही कह दिया था कि 'दुर्योधनके अपराधसे प्रजाका नाश हो जायगा ।' उन्होंने जो कुछ कहा, वह ज्यों-का-त्यों आज सत्य हो रहा है । उस वक्त प्रारब्धवश मेरी बुद्धि मारी गयी थी, इसीलिये मैंने उनके कहनेके अनुसार काम नहीं किया । सञ्जय ! अब मेरे उस अन्यायके फलका पुनः वर्णन करो । कर्णके मारे जानेपर कौन मेरी सेनाका प्रधान बना ? किस महारथी ने श्रीकृष्ण तथा अर्जुनका सामना किया ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! कौरव और पाण्डवोंके आपसमें भिड़नेसे जो महान् जनसंहार हुआ, उसकी कथा सावधान होकर सुनिये । नौकासे व्यापार करनेवाले व्यापारी जैसे अगाध जलमें नाव टूट जानेपर धवरा जाते हैं, उसी प्रकार कौरवोंके आश्रयभूत कर्णके मारे जानेपर आपके सैनिक थर्रा उठे । वे अनायकी भाँति रक्षक ढूँढने लगे । संध्याके समय अर्जुनसे परास्त होकर जब हमलोग छावनीमें

लौटे, उस समय कर्णकी मृत्युसे डरकर आपके सभी पुत्र भाग रहे थे । उनके कवच नष्ट हो गये थे । किस दिशामें जाना है, इसका भी उन्हें पता नहीं था; वे सुध-बुध खो



बैठे थे । वे आपसमें एक-दूसरेको ही मारने लगे । बहुत-से महारथी भयके कारण घोड़ों, हाथियों और रथोंपर सवार होकर इधर-उधर भागने लगे । उस भयंकर संग्राममें हाथियोंने रथ तोड़ डाले, महारथियोंने घुड़सवारोंको मार डाला तथा रणभूमिसे भागनेवाले पैदलोंको घोड़ोंने कुचल डाला ।

इसी समय कृपाचार्यजी आकर दुर्योधनसे बोले—
'राजन् ! मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ; उसे ध्यान देकर

मुनो और अच्छा लगे तो उसके अनुसार काम करो । तिसाहस्र भोम, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, तुम्हारे बहुतसे भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण—ये सब

जंमे भयंकर आग घासकी ढेरोको जला डालती है । वे धनुषकी टंकारसे हमारे घोडाओंको उसी प्रकार भयभीत करते हैं, जैसे सिंह मृगोंको । आज इस भयंकर संग्रामको प्रारम्भ हुए सत्रह दिन बीत गये । महासागरमें हवाके थपड़े खाकर डगमगाती हुई नौकाकी तरह आपकी सेनाको अर्जुनने कैपा डाला है । उस दिन जयद्रथको अर्जुनके बाणोंका निराणा बनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था ? अपने अनुयायियोंके साथ आचार्य द्रोण, मैं, तुम, कृतवर्मा तथा भाइयोंसहित दुःशासन—ये लोग कहाँ गये थे ? सब वहाँ तो थे, पर अर्जुनपर किसका जोर चला ? तुम्हारे सन्धिकियों, भाइयों, सहायकों तथा मामाओंको उन्होंने अपने पराक्रमसे जीत लिया और तुम्हारे देवते-देवते सबके सिरपर पर रखकर जयद्रथको मार डाला ! अब हम किसका भरोसा करें ? यहाँ कौन ऐसा पुरुष है, जो अर्जुनपर विजय पा सकेगा ? उनके पास नाना प्रकारके दिव्य अस्त्र हैं । उनके गाण्डीवकी टंकार सुनकर हमलोगोंका धर्म छूट जाता है । जैसे चन्द्रमाके बिना रात्रि अन्धकारमयी दिखायी देती है, उसी प्रकार हमारी यह सेना सेनापतिके मारे जानेसे श्रीहीन हो रही है । सभी घोडा घबराये हुए हैं । उधर सात्यकि और भीमसेनका जो चेह है, वह समस्त पर्वतोंको विदीर्ण कर सकता है, समुद्रोंको मुखा सकता है । राजन् ! छूत-समामें भीमसेनने जो बात कही थी, उसे उन्होंने सत्य करके दिखा दिया; आगे भी वे ऐसा ही करेंगे । पाण्डव सज्जन हैं, किन्तु तुमलोगोंने उनके साथ अकारण ही बहुतसे अनुचित व्यवहार किये; उन्हींका अब फल मिल रहा है । तुमने यत्न करके सारे जगत्के लोगोको अपनी रक्षाके लिये एकत्रित किया था, किन्तु तुम्हारा ही जीवन संदेहमें पड़ा हुआ है ! दुर्गाधन ! अब तुम अपनेको बचाओ ! द्यूस्पतिजीकी बतायी हुई यह नीति है कि 'जब अपना दल कम अथवा बराबर जान पड़े तो शत्रुके साथ संधि कर लेनी चाहिये । लड़ाई तो उस वकत छेड़नी चाहिये, जब अपनी शक्ति शत्रुसे बढ़-चढ़कर हो ।' यत्न और शक्तिमें हम पाण्डवोंसे कम हो गये हैं, अतः मेरी रायमें तो अब उनसे संधि कर लेना ही उचित है । जो राजा अपनी भलाईकी बात नहीं जानता और श्रेष्ठ पुरुषोंका अपमान किया करता है, वह शीघ्र ही राज्यसे अष्ट हो जाता है; उसका भला भी नहीं होता । यदि राजा युधिष्ठिरके सामने झुकनेसे हमलोग राज्य पा जायें तो इसीमें अपनी भलाई है । मूलंतावश हार जानेमें कोई लाभ नहीं है । राजा धृतराष्ट्र और भगवान् श्रीकृष्णके कहनेसे युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं । श्रीकृष्ण



तो मारे जा चुके; अब कौन बच गया है, जिसका हम आश्रय ग्रहण करें ? जिन बोरोंपर युद्धका भार रखकर हम राज्य पानेकी आशा करते थे, वे तो शरीर छोड़कर वेदवेत्ताओंकी गतिके प्राप्त हो गये । हमने बहुतसे राजाओंको मरवाकर अपने गुणवान् महारथियोंको लो दिया है । उनके चिना अब हम अकेले रह गये हैं, ऐसी दशामें हमें दीनतापूर्ण वर्तव्य करना पड़ेगा । जब सब लोग जीवित थे, तब भी अर्जुन किसीके द्वारा परास्त नहीं हुए । कृष्ण-जैसे सारथिके होते हुए उन्हें देवता भी नहीं जीत सकते । उनकी वानरकी चिह्नवाली ध्वजा देखकर हमारी विशाल सेना घबरा उठती है । भीमसेनका सिंहनाद, पाञ्चजन्यकी भयंकर आवाज और गाण्डीव धनुषकी टंकार सुनकर हमलोगोंका दिल बंठ जाता है । अर्जुनके हाथमें डोलता दृष्टा सुवर्णसे जडित महान् धनुष चारों दिशाओंमें इस प्रकार दिखायो देता है, जैसे मेघको घटाओंमें बिजली । जिस प्रकार पापुनो प्रेरणासे यादल उड़ते फिरते हैं वैसे ही भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा हाने हुए घोड़े, जो सुनहले साजोंमें सजे रहते हैं, अर्जुनकी सवारोमें बीड़ते हैं । अर्जुन अस्त्रविद्यामें कुशल हैं; उन्होंने तुम्हारी सेनाको उसी प्रकार भस्म किया है,

युधिष्ठिर, भीम और अर्जुनसे जो कुछ कहेंगे उसे वे सब लोग मान लेंगे—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा विश्वास है कि श्रीकृष्ण धृतराष्ट्रकी बात नहीं टालेंगे और युधिष्ठिर श्रीकृष्णकी आज्ञाके विरुद्ध नहीं करेंगे। इसलिये मैं संधि करनेमें ही कुशल देखता हूँ, पाण्डवोंके साथ लड़नेमें कोई लाभ नहीं है। तुम यह न समझना कि मैं कायरतावश या प्राण बचानेके लिये ऐसी बात कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे ही भलेके लिये कहता हूँ। यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे तो भरते समय तुम्हें मेरी बातें याद आयेंगी।

कृपाचार्यके इस प्रकार कहनेपर दुर्योधन जोर-जोरसे गरम उसाँस खींचता हुआ कुछ देरतक चुपचाप बंठा रहा। फिर थोड़ी देरतक सोचने-विचारनेके बाद उसने कहा—'विप्रवर ! एक हितैषीको जो कुछ कहना चाहिये, वह सब आपने कह सुनाया। यही नहीं, प्राणोंका मोह छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरी भलाईके लिये सब कुछ किया है। यद्यपि हितचिन्तक होनेके नाते आपने मेरे भलेके लिये ही यह बात बतायी है, तब भी यह मुझे पसंद नहीं आती—ठीक उसी तरह, जैसे मरनेवाले रोगीको दवा अच्छी नहीं लगती। राजा युधिष्ठिर महान् धनी थे, मैंने उन्हें जुएमें जीतकर दर-दरका भिखारी बनाया और राज्यसे बाहर निकाल दिया; अब वे मुझपर कैसे विश्वास करेंगे? मेरी बातोंपर उन्हें क्योंकर एतबार होगा? श्रीकृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आये थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया; अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे? सभामें बलात्कार-पूर्वक लायी हुई द्रौपदीने जो विलाप किया था तथा पाण्डवोंका जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लिये श्रीकृष्णको अवतक अमर्ष बना हुआ है। श्रीकृष्ण और अर्जुन दो शरीर, एक प्राण हैं; वे दोनों एक दूसरेके अवलम्ब हैं। पहले तो यह बात मैंने केवल सुनी थी, परंतु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जबसे उन्होंने अपने भानजे अभिमन्युका मरण सुना है, तबसे वे सुखकी नींद नहीं लेते। हमलोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें क्षमा कैसे कर सकते हैं? महाबली भीमसेनका स्वभाव भी बड़ा कठोर है, उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काठकी तरह वह टूट भले ही जाय, झुक नहीं सकता। नकुल और सहदेव यमराजके समान भयंकर हैं, वे दोनों भी मुझसे वैर मानते हैं। धृष्टद्युम्न और शिखण्डीका भी मेरे साथ वैर है, फिर वे मेरे हितके लिये क्यों मत्त करेंगे? द्रौपदी एक वस्त्र पहने हुए थी, रजस्वला थी, उस अवस्थामें वह सभामें लायी गयी और दुःशासनने सबके सामने उसे क्लेश पहुँचाया। उसके वस्त्रका उतान

जाना—उसकी वह दीनावस्था पाण्डवोंको आज भी याद है। अब उन्हें युद्धसे रोका नहीं जा सकता। जबसे द्रौपदीको क्लेश दिया गया, तभीसे वह मेरे विनाशका संकल्प लेकर मिट्टीकी वेदीपर सोया करती है। जबतक वैरका पूरा बदला न चुका लिया जाय, तबतकके लिये उसने यह व्रत ले रखा है। इस प्रकार वैरकी आग पूर्णरूपसे प्रज्वलित हो उठी है, अब वह किसी तरह बुझ नहीं सकती। अभिमन्युका नाश करनेके बाद अर्जुनके साथ मेरा मेल कैसे हो सकता है? जब मैं समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका एकच्छत्र राजा होकर इसका पूरा उपभोग कर चुका हूँ तो इस समय पाण्डवोंका कृपापात्र बनकर कैसे राज्य कर सकूँगा? समस्त राजाओंका सिरमौर होकर अब दासकी भाँति युधिष्ठिरके पीछे-पीछे कैसे चलूँगा? दीनतापूर्ण जीवन क्योंकर व्यतीत करूँगा? मैं आपकी बातोंका खण्डन या तिरस्कार नहीं करता; क्योंकि आपने स्नेहवश मेरे हितके ही लिये वे बातें कही हैं। मैं तो केवल अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। मेरे मनमें यही आता है कि अब संधिका अवसर नहीं रहा। इस समय संघिकी चर्चा चलाना किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता। मुझे अब युद्धमें ही सुन्दर नीति दिखानी दे रही है। यह समय भयभीत होकर कायरता दिखानेका नहीं, उत्साहके साथ युद्ध करनेका है। मैं पाण्डवोंके सामने दीनतापूर्ण वचन नहीं कह सकता। संसारमें कोई भी सुख सदा रहनेवाला नहीं है, फिर राष्ट्र और यश भी कैसे रह सकते हैं? यहाँ तो कीर्तिका ही उपाजंन करना चाहिये और कीर्ति युद्धके सिवा दूसरे किसी उपायसे नहीं मिल सकती। घरमें खाटपर सोकर मरना क्षत्रियके लिये बहुत बड़ा पाप है। जो बड़े-बड़े यज्ञ करके वनमें या संग्राममें शरीर त्याग करता है, वही महत्त्वको प्राप्त होता है। जिसका बूढ़ापके कारण शरीर जर्जर हो गया हो, रोग पीडा दे रहा हो, परिवारके लोग आस-पास बैठकर रोते हों, उस अवस्थामें दीनतायुक्त वचन बोलकर विलाप करते-करते प्राण त्यागनेवाला क्षत्रिय 'मर्द' कहलाने योग्य नहीं है। अतः जिन्होंने नाना प्रकारके भोगोंका परित्याग करके उत्तम गति प्राप्त की है, इस समय युद्धके द्वारा मैं उनके ही लोकमें जाऊँगा। जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो संग्राममें पीठ नहीं दिखानेवाले, शूरवीर, सत्यप्रतिज्ञ तथा नाना प्रकारके यज्ञ करनेवाले हैं, जिन्होंने शस्त्रकी धारामें अवभृय (यज्ञान्त) स्नान किया है, उनका स्वर्गमें निवास होता है। देवताओंकी सभामें वे बड़े सम्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। देवता तथा संग्राममें पीठ नहीं दिखानेवाले शूरवीर जिस मार्गसे जाते हैं, उसीसे मैं भी —

यदि मैं अपने प्राणोंकी रक्षा करूँ तो निश्चय ही सारा संसार मेरी निन्दा करेगा। भला, मित्रों और भाइयोंसे हीन होकर पाण्डवोंके पंरोंपर पड़नेसे जो राज्य मिलेगा, यह मेरे लिये किस कामका होगा? इसलिये अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्गकी ही प्राप्ति करूँगा, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिये।'

दुर्योधनकी यह बात सुनकर सब क्षत्रियोंने उसकी



राजा शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक और भगवान् श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको शल्यसे लड़नेके लिये आदेश

सञ्जय कहते हैं—महाराज! हिमात्मकी तराईमें विधाय करनेके समय सभी प्रधान-प्रधान योद्धा एक स्थानपर इकट्ठे हुए। शल्य, चित्रसेन, शकुनि, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सुपेण, अरिष्टसेन, धृतसेन तथा जयत्सेन आदि राजाओंने भी वहाँ रात्रि बितायी थी। इन सब लोगोंने एकत्रित होकर राजा शल्यके पास बंठे हुए दुर्योधनका विधिबन्ध पूजन किया और युद्धके लिये प्रयत्नशील होकर कहा—'राजन्! तुम किसीको सेनापति बनाकर शत्रुओंके साथ युद्ध करो; क्योंकि सेनापतिके संरक्षणमें रहकर ही हम अपने वरिष्ठोंपर विजय पा सकते हैं।'

तब राजा दुर्योधन रथपर सवार हो महारथी अश्व-स्थामाके पास गया। अश्वत्थामा युद्धकी सम्पूर्ण कलाओंका ज्ञाता था, संग्राममें तो यह यमराजके समान जान पड़ता था। सूर्यके समाप्त तेजस्वी और शत्रुाचार्यके समान बुद्धिमान था। उसमें सभी प्रकारके शुभ लक्षण थे, वह प्रत्येक कार्यमें निपुण और वैदिक ज्ञानका समृद्ध था। शत्रुओंकी वेगसे जीतनेवाला और स्वयं अजेय था। धनुर्वेदके (शत, प्राप्ति, घृति, पुष्टि, स्मृति, क्षेप, अरिभेदन, चिकित्सा, उद्दीपन और कृष्टि—इन) दस अङ्गोंकी तथा (दीक्षा, शिला, आत्मरक्षा और इसका साधन—इन) चार पादोंकी ठीक-ठीक जानता था। छः अङ्गोंसहित चारों वेदों तथा इतिहास-पुराणरूप पञ्चम वेदका भी उसे पूर्ण ज्ञान था। उस महातपस्वीने कठोर व्रतोंका पालन करके बड़े धनसे शंकरजीकी आराधनाकी थी। उसके पराक्रम और हथकी कर्हों भी तुलना नहीं थी। यह सम्पूर्ण विद्याओंका पारगामी, गुणोंका समृद्ध तथा सबकी प्रशंसाका पात्र था।

उसके पास पहुँचकर दुर्योधनने कहा—'आप हमारे गुरुके पुत्र हैं, हम सब लोगोंको आपका ही भरोसा है; अतः आप आज्ञा करें, हम कितने अपना सेनापति बनायें?'

प्रशंसा की ओर उसे बहुत धन्यवाद दिया। सबने अपनी पराक्रमका शोक छोड़कर मन-ही-मन पराक्रम करनेकी टान ली। युद्ध करनेके विषयमें सबका एक निश्चय हो गया। सबके हृदयमें उत्साह भर गया। तत्परचातु सब योद्धाओंने अपने-अपने वाहनोकी विधाय दे आठ चौसते कुछ कम दूरीपर जाकर डेरा डाला। यहाँ रात्रि बिताकर दूसरे दिन कालकी प्रेरणासे वे पुनः रणभूमिकी ओर लौटे।



अश्वत्थामाने कहा—'हम लोगोंने राजा शल्य ही अब ऐसे हैं, जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेज, यश, लक्ष्मी तथा समस्त सद्गुणोंसे सम्पन्न हैं। ये ही हमारे सेनापति होने योग्य हैं। राजन्! इन्हेंको सेनाध्यक्ष बनाकर हम शत्रुओंपर विजय पा सकते हैं।'

द्रोणकुमारके ऐसा कहनेपर सभी योद्धा राजा शल्यको घेरकर लड़े हो गये और उनकी जय-जयकार करने लगे। अब उन्होंने बड़े आवेशमें भरकर युद्धका निश्चय किया राजा शल्य द्रोण तथा भीष्मके समान पराक्रमी थे, वे एक उत्तम रथपर बंठे हुए थे। दुर्योधन रथसे उतरकर उनके



सामने भूमिपर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला—
'मित्तवत्सल ! आप शूरवीर हैं, इसलिये हमारी सेनाके
अध्यक्ष बनिये ।'

राजा शल्यने कहा—कुरुराज ! यदि तुम मुझे
सेनापतिका सम्मान दे रहे हो, तो मैं तुम्हारे कयनानुसार सब
कुछ करूँगा । मेरे प्राण, राज्य और धन सब कुछ तुम्हारा
प्रिय करनेके लिये ही हैं ।

दुर्योधन बोला—मैं आपको अपना सेनापति स्वीकार
करता हूँ । जैसे स्वामी कार्तिकेयने युद्धमें देवताओंकी रक्षा
की थी, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिये ।

शल्यने कहा—दुर्योधन ! मेरी बात सुनो—रथपर
बैठे हुए जिन श्रीकृष्ण और अर्जुनको तुम महारथियोंमें
श्रेष्ठ समझते हो, वे दोनों बाहुबलमें किसी तरह मेरी समानता
नहीं कर सकते । यदि देवता, असुर और मनुष्योंसहित सारा
भूमण्डल ही मेरे विपक्षमें उठकर आ जाय तो मैं अकेला ही
सबसे युद्ध कर सकता हूँ, फिर पाण्डवोंकी तो बात ही क्या
है ? निःसंदेह मैं तुम्हारी सेनाका संचालक बनूँगा और
ऐसा ब्यूह बनाऊँगा, जिसे शत्रु नहीं लांघ सकते ।

तदनन्तर, राजा दुर्योधनने शास्त्रीय विधिसे अनुसार
शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक किया । उनका अभिषेक
होते ही आपकी सेनामें महान् सिंहनाद होने लगा । तरह-

तरहके बाजे बज उठे और मद्रदेशके महारथी बड़े हर्षमें
भरकर राजा शल्यकी स्तुति करने लगे—'राजन् !
तुम्हारी जय हो, तुम चिरजीवी रहो और सामने आये हुए
समस्त शत्रुओंका संहार करो । तुम तो देवता, असुर और
मनुष्य—सबको युद्धमें परास्त कर सकते हो । इन मरणधर्मी
सोमकों और सृञ्जयोंकी तो बात ही क्या है ?'

इस प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज शल्य फूले नहीं समाये ।
उन्होंने दुर्योधनसे कहा—'राजन् ! आज मैं पाण्डवोंसहित
समस्त पाञ्चालोंका संहार कर डालूँगा अथवा स्वयं ही
मरकर स्वर्गलोकको चला जाऊँगा । आज सम्पूर्ण
पाण्डव, श्रीकृष्ण, सात्यकि, द्रौपदीके पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी
तथा पाञ्चाल, चेदि एवं प्रमद्रक योद्धा मेरे पराक्रमपर
दृष्टिपात करें, मेरे धनुषका महान् बल देखें । आज मैं
पाण्डव-सेनाको चारों ओर भगा दूँगा । तुम्हारा प्रिय करनेके
लिये द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्णसे भी अधिक पराक्रम दिखाता
हुआ रणभूमिमें विचरूँगा ।'

महारज ! जब शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक
हो गया उस समय सभी सैनिक कर्णके मरनेका दुःख भूलकर
प्रसन्नचित्त हो गये । आपकी सेनाका हर्षनाद सुनकर
राजा युधिष्ठिरने सब क्षत्रियोंके सामने ही भगवान्
श्रीकृष्णसे कहा—'माधव ! दुर्योधनने मद्रराज शल्यको
सेनापति बनाया है और सब सेनाओंके नीचे उनका नियंत्रण

सम्मान किया है। यह जानकर आप जो उचित समझिये, कीजिये; क्योंकि आप ही मेरे नेता और रक्षक हैं।'



यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले—'भारत ! मैं भारतायनके पुत्र शल्पको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वे अत्यन्त पराक्रमी और महान् तेजस्वी हैं, युद्ध करनेके विचित्र-विचित्र ढंग उन्हें मालूम हैं। मेरा तो ऐसा लयाल है कि भोष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे, वैसे ही मद्रराज शल्प भी हैं। युद्धमें उनके जोड़का दूसरा योद्धा मुझे आपके सिवा कोई नहीं दिलायी देता। इस भूमण्डलकी कौन कहे, देवलोकेमें भी आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है, जो श्लोघमें भरे हुए मद्रराज शल्पको युद्धमें मार सके। दुर्षोधने जिनका सत्कार किया है, वे शल्प अजेय वीर हैं, उनके मारे जानेपर आप कौरवोंकी विशाल सेनाको भी मरो हुई ही समझिये। मेरी बात मानकर आप इस समय महारथी शल्पपर चढ़ाई कीजिये। मामा समझकर उनपर दया करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्षत्रिय-धर्मको सामने रखकर उन्हें मार ही डालिये। आजके संध्यामें आप अपना तपोबल और क्षात्रबल दिखाइये। महारथी शल्पको अवश्य मार डालिये।'

यह कहकर भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवोंसे सम्मानित हो विश्रामके लिये अपने शिविरमें चले गये। उनके जानेके बाद राजा युधिष्ठिरने सब भाइयों, पाण्डवानों और शौर्मणोंको भी विदा किया। फिर सबने अपने-अपने शिविरमें सोकर रात बितायी।

शल्पके सेनापतित्वमें युद्धका आरम्भ और नकुलद्वारा कर्णके शेष तीनों पुत्रोंका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! यह रात बीत जानेपर दुर्षोधने आपके सब सैनिकोंको आज्ञा दी—'अब सब महारथी तैयार हो जायें।' राजाकी आज्ञा पाकर सारी सेना कचच आदिसे सुसज्जित हो गयी। बाजे बजने लगे। योद्धाओंका सिंहनाद होने लगा। उस समय मरनेसे बचे हुए आपके सैनिक मोतकी परवा न करके रणभूमिकी ओर कूच करते दिखायी देने लगे। मद्रराज शल्पको सेनाका नायक बनाकर महारथियोंने सम्पूर्ण सेनाके कई विभाग किये और सबको युद्धभूमिमें घयात्यान छड़ा किया ! फिर कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्प, शकुनि तथा अन्य राजाओंने मिलकर यह शपथ ली कि 'हमसे कोई भी अकेला होकर पाण्डवोंसे न लड़े, जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते हुए योद्धाको अकेला छोड़ देगा, उसे पाँच महापातक और पाँच उपपातक लगेंगे। इसलिये सब एक दूसरेकी रक्षा करते हुए साथ रहकर युद्ध करें।'

इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियोंने मद्रराजको आगे किया और बड़ी शीघ्रताके साथ शवओपर चढ़ाई कर दी। इसी तरह पाण्डव भी सेनाका व्यवहारा बनाकर युद्धकी



इच्छाते कौरवोंपर चढ़ आये। उनकी सेना क्षुब्ध हुए समुद्रकी भाँति गर्जना कर रही थी। पाण्डवोंका सिंहनाद सुनकर आपके पुत्रोंके मनमें भय तमा गया। तब मद्रराज शल्यने उन्हें धीरज बंधाया और सर्वतोमद्र नामक व्यूह बनाकर पाण्डवोंके ऊपर धावा किया। उस समय वे तिम्युदेशके घोड़ोंसे जुते हुए एक विशाल रथपर विराजमान थे। उनके साथ मद्रदेशके वीर तथा कर्णके अजेय पुत्र भी थे। उनके वाम भागमें विगतोंकी सेनासे घिरा हुआ कृतवर्मा था। दक्षिण भागमें शक और पवनोके साथ कृपाचार्य थे। तथा पृष्ठभागमें काम्बोजोंको साथ लिये अश्वत्थामा मौजूद था। मध्यभागमें दुर्योधन था, जिसकी रक्षा में प्रधान-प्रधान कौरव खड़े थे। वहाँ शकुनि भी था, जो घुड़सवारोंकी विशाल सेनासे घिरा हुआ था। महारथी कौतव्य भी सम्पूर्ण सेनाके साथ जा रहा था।

उधर पाण्डवोंने भी मोर्चाबंदी कर रखी थी। उन्होंने अपनी सेनाको तीन भागोंमें बाँटा था; उन तीनोंके अध्यक्ष थे—घृष्टद्युम्न, शिखण्डी और सात्यकि। इन लोगोंने शल्यकी सेनापर धावा किया। तत्पश्चात् राजा युधिष्ठिर भी शल्यका वध करनेकी इच्छासे अपनी सेनाके साथ उन्हींपर जा चढ़े। अर्जुनने कृतवर्मा और संज्ञप्तकोंपर चढ़ाई की। भीमसेन और सोमकोंका कृपाचार्यपर धावा हुआ। नकुल-सहदेवने शकुनि तथा उत्तकपर आक्रमण किया। इसी प्रकार आपके पक्षके कई हजार सैनिक भी पाण्डवोंपर जा चढ़े।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! भीष्म, द्रोण तथा कर्णके मारे जानेके पश्चात् मेरे पुत्रोंके तथा पाण्डवोंके पास कितनी-कितनी सेना बच गयी थी ?

सञ्जयने कहा—महाराज! शल्यके सेनापतित्वमें जब हम लोग युद्धके लिये उपस्थित हुए थे, उस समय हमारे पास ग्यारह हजार रथ, दस हजार सात सौ हाथी, दो लाख घोड़े तथा तीन करोड़ पैदल थे और पाण्डवोंके पास छः हजार रथ, छः हजार हाथी, दस हजार घोड़े तथा एक करोड़ पैदल मौजूद थे। इस, इतनी ही सेना बच गयी थी और यही युद्धके लिये उपस्थित थी। प्रातःकाल सूर्योदय होते ही दोनों ओरके योद्धा एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे आगे बढ़े। फिर तो दोनों दलोंमें अत्यन्त भयंकर युद्ध छिड़ गया। हजारों घुड़सवार, पैदल, रथी और हाथीसवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरेसे भिड़ गये।

महाराज! पाण्डवोंकी मार पड़नेसे आपकी सेना जहाँ-की-तहाँ बेहोश हो-होकर गिरने लगी। भीमसेन और अर्जुनने आपके सैनिकोंको भूँचूत करके शङ्ख बजाये और

सिंहनाद करने लगे। इसी समय घृष्टद्युम्न तथा शिखण्डीने धर्मराजको आगे करके शल्यपर धावा कर दिया। माद्री-कुमार नकुल और सहदेव भी आपकी सेनापर टूट पड़े। फिर पाण्डवोंने कौरव-सेनाको अपने बाणोंसे बहुत घायल कर दिया। अब कौरव-बाहिनी आपके पुत्रोंके देखते-देखते चारों ओर भागने लगी। सबकी अपनी-अपनी जान बचानेकी फिर पड़ गयी। लोगोंने अपने प्यारे पुत्रों और भाइयोंको छोड़ दिया; पितामहों और मामाओंकी परवा न की, भातजों तथा अन्य सम्बन्धियोंका भी खयाल नहीं किया। सब अपने घोड़ों और हाथियों को जल्दी-जल्दी हाँकते हुए भाग खड़े हुए।

सेनाको इस तरह भागती देख प्रतापी मद्रराजने अपने सारथिसे कहा—मेरे घोड़ोंको शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ाओ



और जहाँ ये राजा युधिष्ठिर खड़े हैं, वही मुझे ले चलो। आज संग्राममें ये मेरे सामने ठहर नहीं सकते।' सेनापतिकी आज्ञासे सारथिने उनके रथको राजा युधिष्ठिरके पास पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचकर बड़े वेगसे आक्रमण करती हुई पाण्डवोंकी विशाल सेनाको शल्यने बकेले ही रोक दिया। उस समय मद्रराजकी समरभूमिमें डटे हुए देख भागनेवाले कौरव-योद्धा भी मृत्युकी परवा न करके लौट आये।

इसी बीचमें नकुलने चित्रसेनपर धावा किया। वे दोनों योद्धा एक दूसरेपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। दोनों ही

अस्त्रविद्याके ज्ञाता, बलवान् और रथद्वारा युद्ध करनेमें प्रवीण थे। दोनों एक दूसरेका वध करनेके लिये प्रयत्नशील होकर परस्पर प्रहार करनेका अवसर ढूँढ़ रहे थे। इतनेहीमें चित्रसेनने एक मल्ल मारकर नकुलका धनुष काट दिया। फिर तीन बाणोंसे उसके ललाटकी बाँधकर अनेकों तेज किये हुए बाणोंसे उसके घोड़ोंको भी यमलोक भेज दिया।


जब धनुष कटा और रथ टूट गया तो धीरवर नकुल ढाल-तलवार लेकर रथसे उतर पड़ा। अब उसने पंवल ही चित्रसेनपर आक्रमण किया। उस समय चित्रसेन उसके ऊपर बाणोंकी बौछार करने लगा। किंतु नकुल विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाला था, उसने चित्रसेनके बाणोंको ढाल-पर ही रोककर मष्ट कर दिया तथा सम्पूर्ण सेनाके सामने ही

टुकड़े-टुकड़े कर डालनेकी चेष्टामें लगे। यह देख नकुलने हँसने-हँसते चार बाणोंसे सत्यसेनके चारों घोड़ोंको मार गिराया। फिर एक नाराच मारकर उसका धनुष भी काट डाला। तब सत्यसेनने दूसरा धनुष और दूसरा रथ लेकर अपने भाईके साथ ही नकुलपर धावा किया और बाणोंकी मड़ी लगाकर उसे सब ओरसे दक दिया। नकुलने भी उनके बाणोंको रोककर दो-दो बाणोंसे दोनोंको अलग-अलग बाँध डाला। फिर उन दोनोंने भी नकुलको घायल किया और तोले सायकोंसे उसके सारथिको भी बाँध डाला। अब सत्यसेनने पृथक्-पृथक् दो बाण मारकर नकुलका धनुष और उसके रथका हरसा काट डाला। तब नकुलने रथशक्ति हाथमें ली और बहुत ऊँचे उठाकर सत्यसेनपर दे मारी।



चित्रसेनके रथपर चढ़कर उसने उसके कुण्डल और मुकुटसे सुगोभित मस्तकको धड़से अलग कर दिया। चित्रसेनका मस्तक रथके पीछे छायामे गिर पड़ा।

उसको मरा हुआ देख पाण्डव-महारथी सिंहनाद करने लगे। किंतु कर्णके महारथी पुत्र सुपेण और सत्यसेन तोले बाणोंकी वर्षा करते हुए नकुलपर टूट पड़े। उनके बाणोंसे नकुलका सारा शरीर दिग्ध गया, तो भी वह नया धनुष लेकर दूसरे रथपर सवार हो शोधमें भरे हुए यमराजकी मूर्ति समरमें डट गया। 'अब ये दोनों भाई नकुलके रथके



उसकी घोटसे सत्यसेनकी छातीके संकड़ों टुकड़े हो गये और वह प्राणहीन होकर जमीनपर जा पड़ा।

भाईको मरा देख सुपेण क्रोधमें भर गया और नकुलके ऊपर बाणोंकी वृष्टि करने लगा। उसने चार सायकोंसे नकुलके चारों घोड़ोंको मार डाला, पाँचसे रथकी ध्वजा काट दी और तीनसे सारथिको भी यमलोक पठा दिया। नकुलको रथहीन देख श्रीपदीकुमार मुत्तसोम दौड़कर वहाँ आ पहुँचा। नकुल उसके रथपर बैठ गया और दूसरा धनुष लेकर सुपेणसे युद्ध करने लगा। तदनन्तर, सुपेणने नकुलको तीन और मुत्तसोमको उसकी भजाओं तथा छातीमें

वीस बाण मारे । तब तो नकुलने क्रोधमें भरकर बाणोंकी मारसे सुपेणको सब ओरसे ढक दिया और एक अर्धचन्द्राकार

बाणसे उसका मस्तक काट गिराया । यह देख कौरव-सेना भयभीत होकर भागने लगी ।

शल्यका युधिष्ठिर और भीमसेनके साथ युद्ध, दुर्योधनद्वारा चिकितानका तथा युधिष्ठिरद्वारा द्रुमसेनका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! उस समय सेनापति शल्यने आपकी भागती हुई सेनाको खड़ी किया और भयंकर सिंहनाद तथा धनुषकी टंकार करते हुए वे शत्रुओंका सामना करनेके लिये डट गये । राजा शल्यसे सुरक्षित होनेपर कौरव-सैनिक निश्चिन्त हो उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये और युद्धकी इच्छासे शत्रुओंकी ओर बढ़ने लगे । उधरसे सात्यकि, भीमसेन और नकुल-सहदेव आदि पाण्डव-योद्धा युधिष्ठिरको आगे करके चढ़ आये और जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे ।

तदनन्तर, अर्जुनने भी संशप्तकोंका संहार करके कौरव-सेनापर धावा किया । इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि वीर भी तीखे सायकोंकी वर्षा करते हुए आपकी सेनापर चढ़ आये । उनकी मार पड़नेसे कौरव सैनिक मूच्छित हो गये । उन्हें विशा और विविशाओंका भी ज्ञान न रहा । पाण्डवोंके बाणोंसे कौरव-सेनाके मुख्य-मुख्य वीर मारे गये । ऐसे ही आपके पुत्रोंने भी पाण्डव-पक्षके सैकड़ों और हजारों वीरोंका संहार कर डाला । उस समय आपसकी मारसे दोनों ओरकी सेनाएँ अत्यन्त संतप्त एवं व्याकुल हो उठीं । युद्ध करनेवाले सैनिक भागने लगे, हाथी चिगघाड़ करने लगे । पैदल सिपाही कराहने और चिल्लाने लगे । समस्त प्राणियोंका भयंकर संहार होने लगा । पाण्डव बलवान् थे, वे जब प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था; इसलिये कौरव-सेना बहुत कष्ट पाने लगी । आपकी सेनाको क्लेशमें पड़ी देख राजा शल्य उसका उद्धार करनेके लिये आगे बढ़े । पाण्डव भी मद्रराजके पास पहुँचकर उन्हें तीखे बाणोंसे बंधने लगे ।

तब महाबली मद्रनरेशने युधिष्ठिरके सामने ही सैकड़ों तीखे बाण मारकर पाण्डव-सेनाका संहार आरम्भ किया । उस समय भाँति-भाँतिके अपशकुन होने लगे । पर्वतोंसहित पृथ्वी डोलने लगी । धीरे-धीरे युद्धका रूप बड़ा भयंकर हो गया । महाबली शल्यने द्रौपदीके सब पुत्रोंको, नकुल-सहदेवको और धृष्टद्युम्न, शिखण्डी तथा सात्यकिको बंध

डाला । उन्होंने इनमेंसे प्रत्येक वीरको दस-दस बाण मारे । तत्पश्चात् शल्यने बाणोंकी ऋद्धी लगा दी । फिर तो प्रमद्वक तथा सोमक क्षत्रिय हजारोंकी संख्यामें गिरते दिखायी देने लगे । उनके सायकोंकी चोट खाकर कितने ही हाथी, घोड़े, पैदल और रथी योद्धा धराशायी हो गये । कितनोंको मूच्छा आ गयी और बहुतेरे चीखने-चिल्लाने लगे । उस समय महाबली मद्रनरेश सिंहके समान दहाड़ रहे थे ।

शल्यके बाणोंसे पीड़ित हुई पाण्डव-सेना रक्षाके लिये महाराज युधिष्ठिरके पास भाग गयी । इस प्रकार सेनाको कुचलकर वे युधिष्ठिरको पीडा देने लगे । यह देख युधिष्ठिरने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करके शल्यको आगे बढ़नेसे रोक दिया । तब शल्यने उनपर एक भयंकर बाण चलाया । वेगसे छूटा हुआ वह बाण युधिष्ठिरको घायल करके पृथ्वीपर जा पड़ा । अब भीमसेनको क्रोध चढ़ा । उन्होंने शल्यको सात बाण मारकर बंध डाला । इसी तरह सहदेवने पाँच और नकुलने दस बाणोंसे उन्हें घायल किया । द्रौपदीके पुत्रोंने भी बड़े वेगसे उनपर बाणोंकी वृष्टि की ।

शल्यको बाण-वर्षासे पीड़ित होते देख कृतवर्मा, कृपाचार्य उलूक, शकुनि, अश्वत्थामा तथा आपके पुत्र—ये सब एकत्रित होकर उनकी रक्षा करने लगे । कृतवर्माने तीन बाणोंसे भीमसेनको बंध डाला । फिर बाणोंकी बौछारसे धृष्टद्युम्नको घायल कर दिया । शकुनिने द्रौपदीके पुत्रोंका तथा अश्वत्थामाने नकुल-सहदेवका सामना किया । दुर्योधन श्रीकृष्ण और अर्जुनके मुकाबलेमें खड़ा हुआ और अपने बाणोंसे उन दोनोंको बंधने लगा । इस प्रकार आपके पक्षके योद्धाओं और शत्रुओंमें सैकड़ों हन्ड-युद्ध हुए । सभी भयंकर और विचित्र थे । तदनन्तर, मद्रराज शल्यने सहदेवके घोड़ोंको मार डाला । तब सहदेवने भी तलवार उठायी और शल्यके पुत्रका सिर धड़से अलग कर दिया । उधर अश्वत्थामाने किंचित मुसकराकर द्रौपदीके पुत्रोंमेंसे प्रत्येकके दस-दस बाण मारे और कृतवर्माने भीमसेनके घोड़ोंको यम-लोक पठा दिया । घोड़ोंके मरनेपर भीमसेन अपने




पड़े और हाथमें कालदण्डके समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों तथा रथकी ध्वजियाँ उड़ा दीं। कृतवर्मा उस रथसे कूदकर भाग गया।

इधर, शल्य भी सोमक और पाण्डव घोड़ाओका संहार करते-करते तीखे धाणोंसे युधिष्ठिरको पीडा देने लगे। यह देख भीमसेन वज्रके समान गदा लिये शल्यपर टूट पड़े और उनके चारों घोड़ोंको मार गिराया। तब शल्यने क्रुपित होकर भीमसेनकी छातीमें तोमरसे प्रहार किया। इससे उनका कवच कट गया और तोमरसे छाती छिद गयी। किंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने वही तोमर अपनी छातीसे निकालकर मद्रराजके सारथिकको छातीपर दे मारा। उसके प्रहारसे सारथिकका मर्म विदीर्ण हो गया और वह रत्न-वमन करता हुआ राजाके सामने ही गिर पड़ा। मद्रराज रथ छोड़कर दूर हट गये और सोहेकी गदा हाथमें लेकर अविचल भावसे खड़े हो गये। भीमसेन भी बहुत बड़ी गदा लेकर शल्यपर टूट पड़े। महाराज ! संसारमें मद्रराज शल्य अपवा यदुनन्दन बलरामजीके सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है, जो गदाधारी भीमका वेग सह सके। इसी तरह शल्यको गदाका वेग भी भीमसेनके सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता था। उन दोनोंमें युद्ध छिड़ गया। मद्रराजने अपनी गदासे भीमसेनकी गदापर जब चोट की तो वह प्रज्वलित-सी हो उठी, उससे आगकी

लपटें निकलने लगीं। इसी प्रकार भीमसेनकी गदाके आघातसे शल्यकी गदा भी अझारे बरसाने लगी—यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गदाकी मारसे एक ही क्षणमें दोनोंके शरीर धायल हो गये, दोनों ही सोहलुलान हो उठे। मद्रराजकी गदासे बायें और दायें भागमें अच्छी तरह चोट छानेपर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए। पर्यंतके समान स्थिर भावसे खड़े रहे। इसी तरह भीमकी गदाका बारंबार आघात होनेपर भी शल्यको जरा भी घबराहट नहीं हुई। ये दोनों जब एक दूसरेपर गदाका प्रहार करते थे, उस समय चारों दिशाओंमें वज्रपातके समान आवाज सुनायी देती थी। उन दोनोंका पराक्रम अतीतिक था। ये सड़ते-सड़ते धाट कदम आगे बढ़ आये और सोहेके ढंड़े उठाकर एक-दूसरेको मारने लगे। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों धीर भग्दसाकार विचरते और अपना-अपना विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे। इसके बाद वे पुनः गदाएँ उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस तरह सड़ते-सड़ते जब अच्छी तरह धायल हो गये तो दोनों एक ही साथ रणभूमिमें गिर पड़े। उस समय दोनों पत्थरी सेनाओंमें हाहाकार मच गया। भीम धीर शल्य—दोनोंके मर्मस्थानोंमें गहरी चोटें लगी थीं, इसलिये दोनों ही अत्यन्त व्याकुल हो गये थे।

इतनेहीमें कृपाचार्य आये और शल्यकी रथमें

विडाकर तुरंत रणभूमिसे बाहर ले गये। इधर भीमसेन पलक मारते-मारते होसमें आकर उठ खड़े हुए और गंदा हाथमेंले मद्रराजको युद्धके लिये ललकारने लगे। तब उनके सैनिक नाता प्रकारके अस्त्र-गस्त्र लेकर पाण्डव-सेनानर दूट पड़े। आपकी सेनाको आगे बढ़ती देख पाण्डव योद्धा भी सिंहनाद करते हुए दुर्योधन आदि कौरवोंपर चढ़



आये। उस समय आपके पुत्रने एक प्रास मारकर चैकितानकी छाती चीर डाली, वह खूनसे नहा उठा और प्राणहीन होकर रथकी बैठकमें गिर पड़ा।

यह देख-पाण्डव नहारयीं आपकी सेनापर बाण-वर्षा करने लगे तथा कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनि—ये मद्रराजको आगे करके धर्मराज युधिष्ठिरसे युद्ध करने लगे। शल्यने युधिष्ठिरको मार डालनेकी इच्छासे उन्हें तीखे बाणोंसे बौध डाला। तब युधिष्ठिरने भी नुमकराते हुए चौदह नाराच हाथमें लिये और उनसे शल्यके मर्मस्थानोंको बौध डाला। जब शल्य श्रोधमें मर गये। उन्होंने राजा युधिष्ठिरकी प्रणति रोक दी और अनेकों बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिरने भी तेज किये हुए सायकोंसे शल्यको घायल किया; फिर बन्धसेनको सत्ताईस और उनके सारथिकों नी बाणोंसे घायल करके दूमसेनको चौंसठ बाणोंसे मार डाला।

चक्रवर्तकके मारे जानेपर शल्यने पञ्चीस चेदि-योद्धाओंका सहाया कर डाला; फिर सात्यकिको पञ्चीस, भीमसेनको पाँच तथा नकुल-सहदेवको ती बाणोंसे घायल कर डाला। राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमिमें विचर रहे थे, उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिरने अनेकों तीक्ष्ण बाणोंका प्रहार किया। साय ही उनके रथकी ध्वजा भी काट दी। ध्वजा गिरी हुई देख शल्यको बड़ा श्रोध हुआ और वे शत्रुओंपर बाणोंकी बौछार करने लगे। उन्होंने सात्यकि, नोम, नकुल और सहदेव—इनमेंसे हर एकको पाँच-पाँच बाणोंसे घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिरकी छातीपर बाणोंका जाल-सा फैलाकर उन्हें खूब पीड़ित किया।

राजा शल्यका पराक्रम, अर्जुन-अश्वत्थामाका युद्ध तथा राजा सुरथका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज! मद्रराज शल्य जब युधिष्ठिरको पीडा देने लगे, उस समय सात्यकि, भीमसेन, नकुल और सहदेवने आकर शल्यको घेर लिया और उन्हें बौधना आरम्भ कर दिया। भीमसेनने शल्यको पहले एक और फिर सात बाणोंसे घायल किया। सात्यकिने उन्हें ती बाण मारकर सिंहके समान गर्जना की। नकुलने पाँच और सहदेवने सात बाणोंसे शल्यको बौधकर पुनः सात सायकोंसे घायल किया।

इन महारथियोंसे पीड़ित होकर भी शूरवीर शल्य रणमें उठे रहे। उन्होंने सात्यकिको पञ्चीस, भीमसेनको तिहत्तर और नकुलको सात बाणोंसे बौध दिया। इसके बाद सहदेवके बाणनहित धनुषको काटकर उसे इच्छासे सायकोंसे घायल

किया। सहदेवने भी दूसरा धनुष लेकर मामाजीको पाँच बाण मारे। फिर एक बाणसे उनके सारथिको घायल किया, इसके बाद पुनः तीन बाण मारकर शल्यको पीड़ित कर दिया। तदनन्तर, भीमसेनने सत्तर, सात्यकिने नौ तथा धर्मराजने साठ बाण मारे। फिर शल्यने भी प्रत्येकको पाँच-पाँच बाण मारकर बौध डाला।

तब सात्यकिने श्रोधमें मरकर शल्यपर तोमरका प्रहार किया, भीमसेनने सपके समान नाराच चलाया, नकुलने शक्ति छोड़ी और सहदेवने गदा तथा धर्मराजने शतधनीका वार किया। इस तरह पाँच वीरोंके चलाये हुए पाँच अस्त्र एक ही साय शल्यकी ओर छूटे, किन्तु शल्यने अपने शस्त्रोंसे मारकर उन सबको पीछे हटा दिया और सिंहके समान गर्जना की।

शत्रुकी यह गर्जना सात्यकिसे नहीं सही गयी। उन्होंने दो बाणोंसे मद्रराजको और तीनसे उनके सारथिको बाँध डाला। तब शाल्यने श्रोधमें भरकर पाण्डवपक्षके उन सभी महारथियोंको दस-दस बाण मारे। इस प्रकार शाल्यके द्वारा बाधा पाकर वे महारथी अब उनके सामने नहीं ठहर सके। मद्रराजका यह पराक्रम देखकर दुर्गंधने समझ लिया कि अब पाण्डव, पाञ्चाल तथा सुञ्जय-धीर भरे हुएके ही समान हैं।

तदनन्तर, धर्मराज युधिष्ठिरने एक क्षुरप्रके द्वारा शाल्यके चक्ररक्षकको मार डाला। यह देख शाल्यने बाणोंकी झड़ी लगाकर पाण्डव-सैनिकोंको आच्छादित कर दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर सोचने लगे कि 'आजके युद्धमें मैं भगवान् धीकृष्णकी कही हुई (शाल्यको मार डालनेकी) बात कैसे पूर्ण कर सकता हूँ? कहीं ऐसा न हो कि मद्रराज श्रोधमें भरकर मेरी सारी सेनाका ही संहार कर डालें?' वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि घोड़े, हाथी तथा रथियोंकी सेनाके साथ-पाण्डव-सैनिक वहाँ आ पहुँचे और मद्रराजको सब ओरसे पीड़ित करने लगे।

किंतु मद्रराज शाल्यने पाण्डवोंद्वारा की हुई अस्त्र-वर्षाकी शान्त कर दिया। इसके बाद हमलोगोंने राजा शाल्यकी बाणवृष्टि देखी। उनके बाण आसमानसे गिरती हुई टिड्ढियोंके समान जान पड़ते थे। उस समय आकाश सायकोंसे ठसठस भर गया था तथा घना अन्धकार छा जानेके कारण पाण्डवोंकी या हमारे पक्षकी कोई भी वस्तु सूझ नहीं पड़ती थी। मद्रराजकी बाण-वर्षासे पाण्डव-सेनाकी विचलित होती देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि महारथी घबरापि बहुत घायल हो चुके थे, तो भी वे उस युद्धमें शाल्यको छोड़कर न जा सके। उनसे लड़ते ही रहे।

दूसरी ओर, अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलनेवाले त्रिगर्त देशके महारथियोंने बहुत-से बाण मारकर अर्जुनकी घायल कर दिया। तब धनञ्जयने तीन बाणोंसे द्रोणकुमारकी ओर दो-दो बाणोंसे अन्य महारथियोंको बाँध डाला। तत्पश्चात् उन्होंने पुनः बाण बरसाना आरम्भ किया। इससे आपके पक्षके योद्धा बहुत घायल हो गये। इसके बाद उन्होंने भी इतनी बाण-वर्षा की कि अर्जुनके रथकी बँठक थोड़ी ही देरमें भर गयी। धीकृष्ण और अर्जुनके सारे अङ्ग बाणोंसे बिध गये—यह देख आपके सैनिकोंको बड़ा हर्ष हुआ।

महाराज! उस समय आपके योद्धाओंने अर्जुनकी जो बुरा की, वंसी न तो पहले कमी देखी गयी और न सुनी ही गयी थी। उनके रथमें सब ओर विचित्र पंखोंवाले बाण

धँसे हुए थे। तदनन्तर, अर्जुन भी आपके सेनापर बाण-वर्षा करने लगे। उनके नामाशरोंसे अङ्कित बाणोंकी मार खाते हुए कौरव सैनिकोंको सब कुछ अर्जुनमय ही प्रतीत होने लगा। अर्जुनरथी आग आपके योद्धारथी ईंधनोंकी बड़े वेगसे भस्म करने लगी। सायकोंकी चोटसे बचानेके लिये जितपर लोहेके आवरण पड़े हुए थे, ऐसे-ऐसे दो हजार रथोंका अर्जुनने विध्वंस कर डाला। जैसे प्रलयकालीन अग्नि इस घराचर जगत्को दग्ध करके धूमरहित होकर इमकने लगती है, उसी प्रकार पाप्य भी शत्रुओंका संहार करके देवीप्यमान ही रहे थे।

पाण्डुनन्दनका यह पराक्रम देख अश्वत्थामाने सामने आकर उन्हें आगे बढ़नेसे रोका। फिर तो उन दोनोंमें भीषण बाण-वर्षा होने लगी और बहुत देरतक एक-सा ही युद्ध चतता रहा। फिर अश्वत्थामाने बारह बाणोंसे अर्जुनकी ओर दससे धीकृष्णको बाँध डाला। तब अर्जुनने भी हँसकर गाण्डीवकी टंकार की और बाणोंसे गुरुपुत्रकी पूजा करके उसके घोड़ों और सारथिको मार डाला। अब अश्वत्थामाने उसी रथपर लड़ा हो एक लोहेका मूसल लेकर उसे अर्जुनपर वे मारा, किंतु अर्जुनने सहसा उसके सात टुकड़े कर डाले। यह देख द्रोणकुमारने कुपित हो अर्जुनपर एक भयंकर परिष्का प्रहार किया; परंतु पाप्यने पाँच बाण मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। सायही तीन भलोंसे द्रोणकुमारको पूब घायल किया।

अर्जुनके प्रहारसे अत्यन्त आहत हो जानेपर भी द्रोणकुमारको घबराहट नहीं हुई, वह अपने पुण्यायंका भरोसा करके रणमें डटा रहा और पञ्चाल देशके महारथी मुरपपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। मुरप भी अश्वत्थामाकी ओर दौड़ा और उसके ऊपर बाणोंकी बौछार करने लगा। यह देख अश्वत्थामाको बड़ा क्रोध हुआ, उसकी भीहोंमें तीन जगह घल पड़ गये। अब उसने धनुषपर कालदण्डके समान घयंकर नाराच चढ़ाया और उसे मुरपको लक्ष्य करके छोड़ दिया। यह नाराच मुरपकी छाती छेदकर भीतर घुस गया और मुरप प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। घोरवर मुरपके मारे जानेपर अश्वत्थामा उसीके रथपर जा बँटा और संग्रान्तर्गकी सेना साथ लेकर अर्जुनको युद्ध करने लगा। दुपहरीका वध था, उस समय अर्जुनका शत्रुओंके साथ महान् संघाम हुआ, जो यमलोककी आबादी बढ़ानेवाला था। वहाँ कौरव-योद्धाओंका पराभव देखकर तथा उनके साथ जो अर्जुन अकेले ही युद्ध कर रहे थे, इसको सध्य करके हमलोगोंको बड़ा आश्चर्य हो रहा था।

शल्यका पराक्रम तथा शल्यके साथ युधिष्ठिरका युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! एक ओर दुर्योधन और धृष्टद्युम्नमें महान् संग्राम छिड़ा था, जिसमें बाणों और शक्तियोंका ही अधिक प्रहार हो रहा था। दोनों ही ओरसे सायकोंकी सहस्रों धाराएँ बरस रही थीं। पहले दुर्योधनने ही धृष्टद्युम्नको पाँच बाण मारे, तब धृष्टद्युम्नने भी सत्तर बाण मारकर दुर्योधनको विशेष पीडा पहुँचायी। यह देख उसके भाइयोंने बहुत बड़ी सेनाके साथ आकर धृष्टद्युम्नको चारों ओरसे घेर लिया। घिर जानेपर भी वह अस्त्र-संचालनमें अपने हाथोंकी फुर्ती दिखाता हुआ युद्धमें निर्भय विचर रहा था।


दूसरी ओर शिखण्डी अपने साथ प्रभद्रकोंकी सेना लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मसि युद्ध कर रहा था। वहाँ भी प्राणोंकी बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था। इधर, राजा शल्य बाणोंकी ऋद्धी लगाकर सात्यकि तथा भीमसेन-सहित समस्त पाण्डवोंको पीड़ित कर रहे थे। साथ ही वे नकुल और सहदेवसे भी भिड़े हुए थे। जब शल्य अपने बाणोंसे पाण्डव-महारथियोंको आहत कर रहे थे, उस समय उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं दिखायी देता था।

इसी समय शूरवीर नकुलने अपने मामा (शल्य) पर बड़े वेगसे धावा किया और बाणोंकी वर्षासे उन्हें आच्छादित

कर दिया। फिर हँसते-हँसते उसने दस बाणोंसे शल्यकी छाती छेद डाली। अपने भानजेके द्वारा पीड़ित होकर शल्य भी उसे तीखे बाणोंका निशाना बनाने लगे। यह देख राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्यकि और माद्रीनन्दन सहदेव शल्यपर दूट पड़े। सेनापति शल्यने तुरत ही उन सबका सामना किया। उन्होंने युधिष्ठिरको तीन, भीमसेनको पाँच, सात्यकिको सौ और सहदेवको तीन बाणोंसे बँध डाला।

इसके बाद मद्रराजने क्षुरप्र मारकर नकुलके धनुषको काट दिया। तब नकुलने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर शल्यके रथको बाणोंसे भर दिया। साथ ही, युधिष्ठिर और सहदेवने भी उनकी छातीमें दस-दस बाण मारे। फिर भीमसेनने साठ और सात्यकिने दस सायकोंसे उन्हें घायल कर दिया। अब मद्रराजने क्रोधमें भरकर सात्यकिको पहले नौ और फिर सत्तर बाणोंसे बँध डाला। इसके बाद उसके धनुषको काटकर रथके घोड़ोंको भी मौतके घाट उतार दिया। तत्पश्चात् उन्होंने नकुल, सहदेव, भीमसेन और युधिष्ठिरको भी दस बाणोंसे घायल किया। इस महान् संग्राममें मैंने शल्यका अद्भुत पराक्रम देखा; वे अकेले ही पाण्डवोंके समस्त योद्धाओंके साथ युद्ध कर रहे थे।

तदनन्तर, वे युधिष्ठिरके बहुत निकट आ गये और उन्हें अपने बाणोंसे पीड़ित करके पुनः भीमपर दूट पड़े। उस समय राजा शल्यकी फुर्ती तथा अस्त्र-संचालनकी कुशलता देखकर आपके तथा शत्रुपक्षके योद्धाओंने उनकी बहुत प्रशंसा की। शल्यके बाणोंसे अत्यन्त घायल होकर जब पाण्डव-योद्धा बहुत कष्ट पाने लगे तो युधिष्ठिरके पुकारने और मना करनेपर भी वे युद्धका मैदान छोड़कर भाग चले। इससे धर्मराजको बड़ा अमर्ष हुआ, उन्होंने निश्चय कर लिया कि 'मेरी विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवश्य कलंगा।' फिर तो वे अपने पुरुषार्थका भरोसा करके शल्यको बाणोंसे पीड़ित करने लगे तथा भगवान् श्रीकृष्ण और अपने सब भाइयोंको बुलाकर बोले—'मैं अपने मनकी बात बताता हूँ। मेरे पहियोंकी रक्षा करनेवाले माद्रीकुमार नकुल और सहदेव अब क्षत्रियधर्मको सामने रखकर अपने मामासे अच्छी तरह लड़ें; आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगे या मैं ही उनका वध कलंगा। मेरी इस बातको तुम लोग सत्य समझो। इस समय पहियोंकी रक्षाका भार सात्यकि और धृष्टद्युम्नपर रहा। सात्यकि दायें पहियेकी रक्षा करें





और धृष्टद्युम्न बायेंकी। अर्जुन वृष्टभागकी रक्षामें रहे और भीमसेन मेरे आगे-आगे चलें। ऐसी व्यवस्था हो जानेपर मैं इस महासमरमें शल्यसे अधिक प्रबल हो जाऊँगा।'

राजाकी आज्ञा पाकर सबने वैसा ही किया; क्योंकि सभी उनका प्रिय करनेवाले थे। फिर तो पाण्डव-सेनामें बड़ा उत्साह छा गया। पाञ्चाल, सोमक और मत्स्य-देशीय वीर अत्यन्त हृद्यमें भर गये। युधिष्ठिरने 'विजय अथवा मृत्यु' की प्रतिज्ञा करके मद्रराजपर चढ़ाई की। उस समय शङ्ख और भेरियाँ बजने लगीं। पाञ्चाल घोड़ा सिंहनाद करते हुए मद्रराजपर टूट पड़े। परंतु आपके पुत्र दुर्षोधन तथा मद्रराज शल्यने उन्हें आगे बढ़नेसे रोक दिया। अब शल्य युधिष्ठिरपर बाणोंकी बौछार करने लगें। दुर्षोधन भी सायकोंकी वर्षा करता हुआ अपनी अस्त्र-विद्याका परिचय देने लगा।

उस समय भीमसेन दुर्षोधनसे भिड़ गये। धृष्टद्युम्न, सारथिक, नकुल और सहदेवने शकुनि आदि बौरोंका सामना किया। फिर तो घमसात युद्ध होने लगा। दुर्षोधनने भीमसेनकी ध्वजा काट दी। उनके धनुषके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब भीमसेनने शक्तिना प्रहार करके दुर्षोधनकी छाती छेद डाली। वह मूर्च्छित होकर रथकी बैठकमें गिर पड़ा। दुर्षोधनके मोहाकण्ठ ही जानेपर भीमने क्षुरप्रसे उसके सारथिकका सिर धड़से अलग कर दिया। सारथिकके

मरते ही उसके घोड़े जोरसे भागे, उस समय हाहाकार मच गया। अरवत्यामा, कृपाधार्म्य और कृतवर्मा आपके पुत्रको बचानेके लिये दौड़े।

उधर, युधिष्ठिर तेज किये हुए भल्लसे हजारों कीरव-घोड़ाओंका संहार करने लगें। वे जिस सेनाकी ओर जाते उसीको बाणोंसे मार गिराते थे। घोड़े, सारथिक, ध्वजा और रथके सहित रथियोंका, घुड़मवारोंसहित घोड़ोंका तथा हजारों पैदलोंका उन्होंने सफाया कर डाला। फिर चारों ओर बाणोंकी झड़ी लगाते हुए वे मद्रराज शल्यकी ओर दौड़े।

युधिष्ठिरका ऐसा पराक्रम देख आपके सभी सैनिक धरा उठे। केवल शल्यने उनका सामना किया। वे दोनों क्रोधमें भरकर शङ्ख बजाते और एक-दूसरेकी सलकारते तथा डरते हुए पास आ गये। फिर शल्यने अपने बाणोंकी बौछारसे युधिष्ठिरको दक दिया तथा युधिष्ठिरने भी शल्यपर बाणोंकी झड़ी लगा दी; उसी समय उन दोनों धौरोंकी देखकर समस्त सैनिक इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि 'इनमेंसे किसकी विजय होगी?'

इसी बीचमें शल्यने युधिष्ठिरको भी बाण मारे और उनका धनुष भी काट दिया। तब युधिष्ठिरने दूसरा धनुष लेकर शल्यकी तीन ती बाणोंसे बांध डाला और क्षुरप्र मारकर उनके धनुषको भी लण्डित कर दिया। फिर दो बाणोंसे उनके पारश्वरक्षक तथा सारथिकों की मीतके घाट उतारकर एक

भल्लसे उनके रथकी ध्वजा भी काट डाली। यह देखकर दुर्योधनकी सेनामें भगदड़ पड़ गयी। मद्रराजको इस दुरवस्थामें पड़े देख अश्रवत्यामा दौड़ा आया और उन्हें अपने रथमें बिठाकर बड़ी तेजीके साथ भाग गया। उस समय युधिष्ठिर

सिंहके समान गर्जना करने लगे और मद्रराज शल्य विधिपूर्वक सजाये हुए दूसरे रथपर बँटकर पुनः उनका सामना करने आ गये। शल्यके रथपर निशाना बंधनेवाली मशीन भी थी, जिसे देखते ही शत्रुओंके रोंगटे खड़े हो जाते थे।

शल्यका वध

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर, मद्रराज शल्य मेघके समान बाणोंकी वर्षा करने लगे। वे सात्यकिको दस, भीमसेनको तीन तथा सहदेवको भी तीन बाणोंसे घायल करके युधिष्ठिरको पीड़ित करने लगे। शल्यने धर्मराजकी छातीमें सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी बाणका प्रहार किया। तब युधिष्ठिरने भी सावधानीके साथ बाण मारकर मद्रराजको बौध डाला। उसकी चोट खाकर वे मूर्च्छित हो गये। फिर थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने युधिष्ठिरको सौ बाण मारे। अब युधिष्ठिरने भी नौ सायकोंसे शल्यकी छाती छेद डाली और छः बाण मारकर उनका कवच भी काट दिया। यह देख मद्रराज शल्यने दो सायकोंसे युधिष्ठिरके धनुषके दो टुकड़े कर दिये। तब युधिष्ठिरने दूसरा भयंकर धनुष हाथमें लिया और शल्यको सब ओरसे बौध डाला। शल्यने भी नौ बाण मारकर युधिष्ठिर और भीमसेनके कवच काट दिये और उनकी भुजाओंको भी

विदीर्ण कर डाला। फिर शल्यने एक क्षुराकार बाणसे युधिष्ठिरका धनुष काट डाला और कृपाचार्यने उनके सारथिको यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, शल्यने उनके चारों घोड़ोंको भी मौतके घाट उतार दिया। तत्पश्चात् उन्होंने युधिष्ठिरके सैनिकोंका संहार आरम्भ किया।

राजा युधिष्ठिरकी ऐसी अवस्था देख भीमसेनने बड़े वेगसे बाण मारकर शल्यका धनुष काट डाला और दो सायकोंसे स्वयं उन्हें भी विशेष चोट पहुँचायी। फिर एक बाणसे उनके सारथिका सिर धड़से अलग करके चारों घोड़ोंको भी यमलोक पहुँचा दिया। उस समय मद्रराज शल्य हाथमें ढाल-तलवार लिये रथसे कूद पड़े और नकुलके रथकी ईया (हरसा) काटकर राजा युधिष्ठिरकी ओर दौड़े। राजा शल्यको युधिष्ठिरके ऊपर धावा करते देख धृष्टद्युम्न, द्रौपदीके पुत्र, शिखण्डी तथा सात्यकि सहसा उनपर दूट पड़े।

तदनन्तर, भीमसेनने नौ बाणोंसे शल्यकी ढालके टुकड़े-टुकड़े कर दिये और एक भल्ल मारकर उनकी तलवार भी काट डाली। फिर अत्यन्त हर्षमें भरकर आपकी सेनामें विचरते हुए वे जोर-जोरसे सिहनाद करने लगे। उनकी भयंकर गर्जना सुनकर खूनसे लथपथ हुई आपकी सेना मूर्च्छित-सी हो गयी, उसे दिशाओंका भी भान न रहा।

तत्पश्चात् शल्य युधिष्ठिरकी ओर बढ़े और युधिष्ठिर शल्यकी ओर। युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णके कथनानुसार मन-ही-मन शल्यके वधका निश्चय किया और रत्नजटित सुवर्णमय दण्डवाली एक शक्ति हाथमें ली। फिर क्रोधसे जलती हुई आँखें उठाकर उन्होंने मद्रराजकी ओर देखा। उस समय मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिरकी दृष्टि पड़नेसे भस्म नहीं हो गये—यही सबसे बड़े आश्चर्यकी बात मालूम हुई। तदनन्तर, युधिष्ठिरने उस दमकती हुई भयंकर शक्तिको मद्रराजके ऊपर बढ़े वेगसे चलाया; जोरसे फेंकनेके कारण उससे आगकी चिनगारियाँ छूटने लगीं। पाण्डवोंने चन्दन, माला और उत्तम आसन आदिके द्वारा सदा ही उस शक्तिकी पूजा की थी, वह प्रलयकालीन अग्निके समान प्रज्वलित तथा अयर्वा अङ्गिराद्वारा उत्पन्न की हुई कृत्याके समान



भयंकर थी। उसमें जलचर, थलचर तथा नमचर जीवोंको भी बलपूर्वक नष्ट करनेकी शक्ति थी। विद्वकमनि ब्रह्मचर्यादि नियमोंका पालन करके उसका निर्माण किया था, वह ब्रह्मब्रह्मिण्योका विनाश करनेवाली और लक्ष्य वेधनेमें अचूक थी। बल और प्रयत्नके द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिरने उसे भयंकर मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके बड़े यत्नके साथ अपने शत्रु मद्रराजपर छोड़ा था। एक तो वह पूरा बल लगाकर छोड़ी गयी थी, दूसरे उसकी शक्तिको रोकना किसीके लिये भी असम्भव था, तो भी उसकी चोट सहनेके लिये मद्रराज शल्प गरज उठे। किन्तु वह शक्ति उनको छाती छेदती हुई शरीरके मर्मस्थानोको विदीर्ण कर पृथ्वीमें समा गयी और राजाका विशाल यश भी अपने साथ ही लेंती गयी। उनका सारा अङ्ग छिन्न-भिन्न



हो गया और ये लोहलुहान होकर प्रेमसे पृथ्वीका आतिङ्गन करते हुएसे गिर पड़े।

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने धनुष उठाया और तेज किये हुए भल्लोंसे एक ही क्षणमें बहुत-से शत्रुओंका नाश कर डाला। उनके बाणोंसे आच्छादित होनेके कारण आपके सैनिकोंने आँखें मीच सीं और आपसमें ही एक दूसरेको घायल करके वे बहुत कष्ट पाने लगे। उस समय उनके शरीरोंसे खूनकी धाराएँ बह रही थीं और वे अपने अस्त्र-शस्त्र खोकर जीवनसे भी ह्यम धो रहे थे।

मद्रराजका एक छोटा भाई था, जो अभी नवयुवक था, वह सभी गुणोंमें अपने भाईको बराबरी करता था। शल्पके भारे जानेपर वह पाण्डुनन्दर युधिष्ठिरपर चढ़ आया और बड़ी शीघ्रताके साथ उन्हें नाराचोंका निशाना बनाने लगा। तब धर्मराजने उसे छः बाणोंसे बंध डाला और दो क्षुराक्षर सायकोंसे उसके धनुष तथा ध्वजाको भी काट गिराया।



फिर एक तेज किये हुए भल्लके द्वारा उन्होंने उसका भस्तक काट लिया। तब खूनसे रेंगा हुआ उसका धड़ रथसे नीचे गिर पड़ा। यह देखकर कौरव-सेनामें भगदड़ पड़ गयी। उस समय सात्यकि भागते हुए कौरवोंपर भी बाण बरसाने लगा, किन्तु कृतवमनि वहाँ पहुँचकर उसे आगे बढ़नेसे रोक लिया। अब वे ही दोनों एक-दूसरेपर बाणोंको बौछार करने लगे। कृतवमनि दस बाणोंसे सात्यकिको और तीनोंसे उसके घोड़ोंको घायल कर दिया; फिर एक बाण मारकर उसके धनुषको काट डाला। सात्यकिने उसे फँककर दूसरा धनुष उठाया और कृतवर्माकी छातीमें दस बाण मारे; फिर अनेकों भल्लोंके प्रहारसे उसके रथ और जूएकी ईयाको काट डाला। यही नहीं, उसके घोड़े, पारवर्दशकों तथा सारथिको भी भौतके घाट उतार दिया।

कृतवर्माको रथहीन देख कृपाचार्यने उसे अपने रथपर बिठा लिया और दूर हटा ले गये। अब दुर्योधनको सेना फिर भागने लगी। पाण्डवोंको वेगसे आते और अपनी

सेनाको भागती देख दुर्योधनने अकेले ही समस्त पाण्डवोंको रोका। वह रथपर बैठे हुए पाण्डुपुत्रोंपर, धृष्टद्युम्नपर और आनतं देशके राजापर वाणोंकी वर्षा करने लगा। जैसे मरणधर्मा मनुष्य अपनी मौतको नहीं टाल सकते, उसी प्रकार ये पाण्डव महारथी दुर्योधनको नहीं लांघ सके।

इसी बीचमें कृतवर्मा भी दूसरे रथपर बैठकर वहाँ आ पहुँचा। तब युधिष्ठिरने चार वाणोंसे कृतवर्माके चारों घोड़ोंको जमलोक पहुँचा दिया और तेज किये हुए छः भल्लोंसे


कृपाचार्यको भी घायल किया। घोड़े मारे जानेसे कृतवर्मा रथहीन हो गया—यह देख अश्वत्थामा उसे अपने रथपर बिठाकर युधिष्ठिरसे दूर हटा ले गया। महाराज! आप और आपके पुत्रके अन्यायसे इस प्रकार शेष युद्ध हुआ था। युधिष्ठिरके द्वारा शल्यके मारे जानेपर सब पाण्डव प्रसन्न हो शङ्ख बजाने लगे। सबने राजा युधिष्ठिरकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। नाना प्रकारके बाजे बजाये गये, जिससे चारों ओरकी पृथ्वी गूँज उठी।

मद्रराजके अनुचरोंका वध, कौरव-सेनाका पलायन, भीमद्वारा इक्कोस हजार पैदलोंका संहार और दुर्योधनका अपनी सेनाको उत्साहित करना

सञ्जय कहते हैं—शल्यके मारे जानेपर उनके अनुयायी सात सौ रथी युधिष्ठिरसे लड़नेके लिये आगे बढ़े। उस समय राजा दुर्योधनने उन मद्रदेशीय वीरोंसे कहा—‘इस

रथे हैं’; तो वे गाण्डोवकी टंकार करते हुए वहाँ आ पहुँचे। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकि, द्रौपदीके पाँचों पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी तथा पाञ्चाल और सोमक योद्धा युधिष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये।

इतनेहीमें मद्रदेशीय योद्धा वहाँ चिल्लाकर कहने लगे—‘अरे! वह राजा युधिष्ठिर कहाँ है? उसके शूरवीर भाई भी नहीं दिखायी देते। धृष्टद्युम्न, सात्यकि, द्रौपदीके पुत्र, शिखण्डी तथा अन्यान्य पाञ्चाल महारथी कहाँ हैं?’ इस



समय पाण्डव-सेनाकी ओर न जाओ, न जाओ।’ किंतु उसके बारंबार मना करनेपर भी वे युधिष्ठिरको मार डालनेकी इच्छासे उनकी सेनामें घुप गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने धनुषकी टंकार की और पाण्डवोंके साथ युद्ध आरम्भ कर दिया।

उधर, अर्जुनने सुना कि ‘शल्य मारे गये और उनका प्रिय करनेवाले मद्रदेशीय महारथी धर्मराजको पीड़ित कर



तरह बकवाद करनेवाले उन मद्राजके अनुचरोंको द्रौपदीके महारथी पुत्रोंने मारना आरम्भ कर दिया। उस समय दुर्योधनने उन्हें आशवासन देते हुए पुनः मना किया, किंतु किसीने उसकी आज्ञा नहीं मानी। तब शकुनिने दुर्योधनसे कहा—'भारत ! तुम्हारे रहते-रहते ऐसा होना कदापि उचित नहीं है कि मद्राजकी सेना मारी जाय और हम खड़े-खड़े तमारा देखते रहें। यह शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ रहकर लड़ें; ऐसी दशामें शत्रुओंको अपनी सेनाका संहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन किये जा रहे हो ?'

दुर्योधन बोला—'मैं क्या करूं ? चारोंबार मना करनेपर भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी है, सब एक साथ पाण्डव-सेनामे घुस गये हैं।

शकुनिने कहा—'सप्रामे आये हुए सैनिक जब शोधमें भर जाते हैं, तो वे स्वामीकी भी आज्ञा नहीं मानते; अतः इनके ऊपर शोध नहीं करना चाहिये; यह इनकी उपेक्षा करनेका समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ होकर चलें और यत्नपूर्वक मद्राजके सैनिकोंकी रक्षा करें।

शकुनिके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना साथ ले अपने सिंहावाससे पृथ्वीको कम्पायमान-सा करता हुआ चला। उस दलमें मैं भी था। उधर पाण्डवों और मद्राजके सैनिकोंमें युद्ध छिड़ा हुआ था। अभी एक मूहमें भी नहीं बीतने पाया था कि मद्रदेशीय योद्धा पाण्डवोंसे हायापाई करके भीतके मुंहमें जा पड़े। हमारे पहुँचते-पहुँचते उनका सफाया हो गया। सब और उनके धड़-ही-धड़ खड़े दिखायी देते थे। उस समय पाण्डव हृद्यमे भरकर किल-कारियाँ मार रहे थे। उनके मरनेपर हतलोगोंको वहाँ आते देख पाण्डव योद्धा शङ्खधनिके साथ बाणोंकी सन-सनाहट फँसते हुए हमपर टूट पड़े। वे विजयोल्लाससे मुशीभित हो रहे थे, उनकी मार पड़नेसे दुर्योधनकी सेना पुनः भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी।

राजन् ! शत्यके मारे जानेसे सभी कौरव हतोत्साह हो गये थे। उस समय किसी भी योद्धाकी न तो सेना इकट्ठी करनेकी इच्छा होती थी और न पराक्रम दिखानेकी। भीष्म, शोण और कर्णके मरनेपर जंसा दुःख और भय हुआ था, यही भय हमलोगोंपर फिर सवार हो गया। विजयकी ओरसे पूर्ण निराशा हो गयी। कौरवोंके प्रधान-प्रधान धीर मारे जा चुके थे; इसलिये जो शय थे वे भी तीखे बाणोंने घायल होकर भागने लगे। कुछ लोग घोड़ोंपर चढ़कर भागे और कुछ लोग हाथियोंपर। बहुतेरे रथोंमें ही बँधकर रफूचककर

हो गये। बेचारे पैदल योद्धा भयके मारे बड़े जोरसे पलायन कर रहे थे।

उन सबको उत्साह खोकर भागते देख विजयाभिलाषी पाण्डवों और पाण्डवालोने द्रुततक उनका पीछा किया। उन धीरोंके बाणोंकी सनसनाहट, उनका सिंहके समान बहाड़ना और शङ्ख बजाना बड़ा भयंकर जान पड़ता था। यह सब देख-सुनकर कौरव सैनिक चर्राँ उठते थे। उन्हें इस अवस्थामें देखकर पाण्डव और पाण्डवाल योद्धा आपसमें कहने लगे—'आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शत्रुओंपर विजय पा गये और दुर्योधन अपनी देदीप्यमान राज्यसवधोत्ते घट्ट हो गया। आज अपने पुत्रको मरा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यन्त ध्याकुल हो पुष्पधर परछाड़ ताकर चिरं और दुःख भोगें। आज उनकी समझमें आ जायगा कि कुन्तीनन्दन सब धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ हैं। अब वे जो भरकर अपनी ही निन्दा करते हुए विदुरजीके सत्य और हितकारी बकनोंको धाड़ करें। आजसे वे भी दासकी भाँति परिषदमें रहकर अनुभव करें कि पाण्डवोंने कितना कष्ट उठाया था ? अब अच्छी तरह जान लें कि धीकृष्णको बँसो महिमा है ? और अर्जुनके धनुषकी टंकार कितनी भयंकर है ? उनके अस्त्रों तथा भुजाओंमें कितना बल है ? इतने भी वे पूर्ण परिचित हो जायें। अब दुर्योधनके मारे जानेपर महात्मा भीमसेनके भयंकर बलका भी उन्हें ज्ञान हो जायगा। जिनको और युद्ध करनेवाले धनञ्जय, सात्यकि, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदीके पाँच पुत्र, नकुल-सहदेव, शाल्यको तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर-जैसे धीर हैं, उनकी विजय कंसे न हो ? सम्पूर्ण-जगत्के स्वामी प्रागवान् धीकृष्ण जिनके रक्षक हैं, जिन्हें धर्मका आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों न होगी ?'

इस तरहकी बातें करते हुए सृञ्जय धीर अत्यन्त हृद्यमें भरकर आपके सैनिकोंका पीछा कर रहे थे। इसी समय अर्जुनने रथसेनापर धावा किया। नकुल, सहदेव और सात्यकिने शकुनिपर चढ़ाई की। इधर, अपने सैनिकोंको भीमसेनके भयसे भागते देख दुर्योधनने सारथियोंके बह्रा—'सूत ! यह देख, पाण्डव किस तरह मेरी सेनाको सदेख रहे हैं ? यदि सम्पूर्ण सेनाके पीछे मैं स्वयं मौजूद रहूँ, तो अर्जुन भुम्हे लाँचकर भागे बढ़नेका साह्य नहीं कर सके। इसलिये तू मेरे घोड़ोंको धीरे-धीरे हाँचकर सेनाके पिछले भागकी रक्षा करता हुआ ते चल। मेरे रहनेसे जब पाण्डवोंका बढ़ाव रुक जायगा, तब भागती हुई सेना फिर लौट आयगी।'

दुर्योधनका शूरवीरोंके योग्य बचन सुनकर सारथियोंने घोड़ोंको धीरे-धीरे बढ़ाया। उस समय वहाँ हाथोंगवार, युद्धमवार और रथियोंका पना नहीं था, केवल इषकोस

हजार पंदल योद्धा प्राणोंका मोह छोड़कर युद्धके लिये आकर डट गये। फिर तो हर्षमें भरे हुए उन योद्धाओं और पाण्डवोंमें घोर घमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेनने चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर उन वीरोंका सामना किया। वे भी भीमपर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओरसे घेरकर बाणोंका प्रहार करने लगे। उन्होंने भीमसेनको कंद कर लेनेकी भी कोशिश की।

यह देख भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ, वे रथसे कूद पड़े और हाथमें बहुत बड़ी गदा ले पाँव-प्यादे ही दण्डधारी



यमराजकी भाँति आपके सैनिकोंका संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदासे उन इबकीसों हजार योद्धाओंको मार गिराया। पंदलोंकी वह मरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखायी देती थी। इसी समय युधिष्ठिर आदिने आपके पुत्र दुर्योधनपर धावा किया। किंतु वे उसके पासतक न पहुँच सके। वहाँ हम लोगोंने आपके पुत्रका अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पाण्डव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधनको नहीं परास्त कर सके। उस समय दुर्योधनने देखा कि मेरी सेना भागनेका निश्चय करके अभी थोड़ी ही दूरतक गयी है; तब उसने सैनिकोंको पुकारकर कहा—'अरे ! इस तरह भागनेसे क्या लाभ है ? अब तो शत्रुओंके पास बहुत थोड़ी सेना रह गयी है तथा श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके



हैं; ऐसी दशामें यदि साहस करके हमलोग रणमें डटे रहें, तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पाण्डवोंके अपराध तो कर ही चुके हो, यदि विलग-विलग होकर भागोगे, तो पाण्डव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार जब मरना अवश्यम्भावी है, तो युद्धमें मरनेसे ही हमलोगोंका कल्याण है। जब शूरवीर और कायर सबको ही मौत मार डालती है, तो कौन ऐसा मूर्ख है, जो क्षत्रिय कहलाकर भी युद्धसे मुँह मोड़े। संग्राममें क्षत्रिय-धर्मके अनुसार लड़ते-लड़ते यदि मृत्यु भी हो जाय तो वह परिणाममें सुख देनेवाली है। युद्धके द्वारा मृत्युको वरण करना क्षत्रियके लिये सनातन धर्म है। यदि वह युद्धमें जीत जाय तो यहाँ ही सुख भोगता है और मारा गया तो परलोकमें जाकर महान् फलका भागी होता है। अतः क्षत्रियके लिये युद्धसे उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है।'

दुर्योधनकी बात सुनकर राजाओंने उसकी प्रशंसा की और पुनः पाण्डवोंपर धावा कर दिया। पाण्डव ब्यूह बनाकर खड़े थे और प्रहार करनेको पहलेसे ही तैयार थे। कौरव सैनिकोंको आते देख वे क्रोधमें भर गये और उनका सामना करनेके लिये आगे बढ़े। अर्जुन अपने विश्वविख्यात गाण्डीव धनुषकी टंकार करते हुए रथपर बैठकर आपकी सेनापर टूट पड़े। नकुल, सहदेव और सात्यकिने शकुनिपर धावा किया। इस प्रकार ये सब लोग उत्साहमें भरकर आपकी सेनाकी ओर दौड़े।

शाल्वका वध, सात्यकि और कृतवर्माका युद्ध तथा दुर्योधनका पराक्रम

सृञ्जय कहते हैं—तदनन्तर भ्लेच्छोंका राजा शाल्व कोधमें भरकर पाण्डव-सेनापर चढ़ आया। वह ऐरावतके समान एक पर्वताकार गजराजपर बैठा हुआ था। उसने



इन्द्र-वज्रके समान अत्यन्त भयंकर बाणोंसे पाण्डवोंको बाँधना आरम्भ किया। उसके बाण छोड़ने और सैनिकोंको घमेलोक पहुँचानेमें कितनी देर लगती है, इसे कौरव या पाण्डव कोई भी नहीं जान सके। भ्लेच्छराजका वह हाथी यद्यपि अकेला ही रणभूमिमें विचर रहा था, तो भी पाण्डव, सृञ्जय और सोमक उसे हजारोंकी संख्यामें देखते थे, सब ओर वही यह नजर आता था। वह शत्रुओंकी सेनाको चारों ओर भगाने लगा। थोड़ा अत्यन्त भयभीत हो जानेके कारण अब समरभूमिमें ठहर नहीं सके। आपसमें ही धक्के खाकर कुचले जाने लगे। हाथीके वेगको न सह सकनेके कारण पाण्डवोंकी वह विशाल बाहिनी तितर-बितर हो चारों दिशाओंमें भाग गयी।

यह देख आपके प्रधान-प्रधान थोड़ा भ्लेच्छराजकी प्रशंसा करते हुए गर्जने और शह्व बजाने लगे। उनका शह्वनाब सेनापति धृष्टद्युम्नसे नहीं सहा गया। वह बड़ी उतावलीके साथ हाथीको ओर बढ़ा। उसे आते देख शाल्वने द्वुपद-युद्धका वध करनेके लिये हाथीको उसीकी ओर बोझाया।

तब धृष्टद्युम्नने तीन भयंकर नाराचोंसे हाथीको बाँध डाला; फिर, उसके कुम्भस्थलको लक्ष्य करके उसने पाँच सौ नाराच ओर मारे। हाथी उन प्रहारोंसे पायल होकर पीछेकी ओर भागा, किंतु शाल्वने सहसा उसे लौटाकर धृष्टद्युम्नके रथकी ओर बढ़ा दिया। नागराजको पुनः अपनी ओर आता देख धृष्टद्युम्न भयसे घबरा गया और हाथमें गदा लے बड़े वेगके साथ रथसे कूद पड़ा। इतनेमें हाथीने रथके पास पहुँचकर धोड़ों और सारथिकों कुचल डाला; फिर जोर-जोरसे गर्जना करते हुए उसने रथको मुँहसे उठाकर जमीनपर पटक दिया।

उस समय पाञ्चालराजकुमारको शाल्वके हाथीसे पीड़ित देख भीमसेन, शिशुपदी और सात्यकि सहसा उसके पास दौड़े आये। आते ही उन्होंने अपने बाणोंसे हाथीका वेग रोक दिया। उन महारथियोंके द्वारा अपनी प्रगति रुक जानेसे हाथी विचलित हो उठा; इसी समय राजा शाल्वने बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। उसके साथियोंकी मार खाकर पाण्डव रथी इधर-उधर भागने लगे। शाल्वका यह पराक्रम देख पाञ्चाली और सृञ्जयोंने हाहाकार करते हुए उसके गजराजको चारों ओरसे घेर लिया। तदनन्तर, धृष्टद्युम्नने बड़े वेगसे धावा किया और उस पर्वताकार हाथीके ऊपर गदाकी चोट करके उसे बहुत घायल कर दिया।



हजार पैदल योद्धा प्राणोंका मोह छोड़कर युद्धके लिये आकर डट गये। फिर तो हर्षमें भरे हुए उन योद्धाओं और पाण्डवोंमें घोर घमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेनने चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर उन वीरोंका सामना किया। वे भी भीमपर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओरसे घेरकर बाणोंका प्रहार करने लगे। उन्होंने भीमसेनको कंद कर लेनेकी भी कोशिश की।

यह देख भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ, वे रथसे कूद पड़े और हाथमें बहुत बड़ी गदा ले पाँव-प्यादे ही दण्डधारी



यमराजकी भाँति आपके सैनिकोंका संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदासे उन इक्कीसों हजार योद्धाओंको मार गिराया। पैदलोंकी वह मरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखायी देती थी। इसी समय युधिष्ठिर आदिने आपके पुत्र दुर्योधनपर धावा किया। किंतु वे उसके पासतक न पहुँच सके। वहाँ हम लोगोंने आपके पुत्रका अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पाण्डव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधनको नहीं परास्त कर सके। उस समय दुर्योधनने देखा कि मेरी सेना भागनेका निश्चय करके अभी थोड़ी ही दूरतक गयी है; तब उसने सैनिकोंको पुकारकर कहा—'अरे ! इस तरह भागनेसे क्या लाभ है ? अब तो शत्रुओंके पास बहुत थोड़ी सेना रह गयी है तथा श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके

हैं; ऐसी दशामें यदि साहस करके हमलोग रणमें डटे रहें, तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पाण्डवोंके अपराध तो कर ही चुके हो, यदि विलग-विलग होकर भागोगे, तो पाण्डव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार जब मरना अवश्यभावी है, तो युद्धमें मरनेसे ही हमलोगोंका कल्याण है। जब शूरवीर और कायर सबको ही मौत मार डालती है, तो कौन ऐसा मूर्ख है, जो क्षत्रिय कहलाकर भी युद्धसे मुँह मोड़े। संग्राममें क्षत्रिय-धर्मके अनुसार लड़ते-लड़ते यदि मृत्यु भी हो जाय तो वह परिणाममें सुख देनेवाली है। युद्धके द्वारा मृत्युको वरण करना क्षत्रियके लिये सनातन धर्म है। यदि वह युद्धमें जीत जाय तो यहाँ ही सुख भोगता है और मारा गया तो परलोकमें जाकर महान् फलका भागी होता है। अतः क्षत्रियके लिये युद्धसे उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है।'

दुर्योधनकी बात सुनकर राजाओंने उसकी प्रशंसा की और पुनः पाण्डवोंपर धावा कर दिया। पाण्डव ब्यूह बनाकर खड़े थे और प्रहार करनेकी पहलसे ही तैयार थे। कौरव सैनिकोंको आते देख वे क्रोधमें भर गये और उनका सामना करनेके लिये आगे बढ़े। अर्जुन अपने विश्वविख्यात गाण्डीव धनुषकी टंकार करते हुए रथपर बैठकर आपकी सेनापर टूट पड़े। नकुल, सहदेव और सात्यकिने शकुनिपर धावा किया। इस प्रकार ये सब लोग उतसाहमें भरकर आपकी सेनाकी ओर दौड़े।

शाल्वका वध, सात्यकि और कृतवर्माका युद्ध तथा दुर्षोधनका पराक्रम

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर म्लेच्छोंका राजा शाल्व क्रोधमें भरकर पाण्डव-सेनापर चढ़ आया। वह ऐरावतके समान एक पर्वताकार गजराजपर बंठा हुआ था। उसने



इन्द्र-धनुषके समान अत्यन्त भयंकर बाणोंसे पाण्डवोंको बंधना आरम्भ किया। उसके बाण छोड़ने और सैनिकोंको यमलोक पहुँचानेमें कितनी देर लगती है, इसे कौरव या पाण्डव कोई भी नहीं जान सके। म्लेच्छराजका वह हाथी यद्यपि अकेला ही रणभूमिमें विचर रहा था, तो भी पाण्डव, सञ्जय और सोमक उसे हजारोंकी संख्यामें देखते थे, सब ओर यही वह नजर आता था। वह शत्रुओंकी सेनाको चारों ओर भगाने लगा। योद्धा अत्यन्त भयभीत हो जानेके कारण अब समरभूमिमें ठहर नहीं सके। आपसमें ही धक्के खाकर कुचले जाने लगे। हाथीके वेगको न सह सकनेके कारण पाण्डवोंकी वह विशाल बाहिनी तितर-बितर हो चारों दिशाओंमें भाग गयी।

यह देख आपके प्रधान-प्रधान योद्धा म्लेच्छराजकी प्रशंसा करते हुए गर्जने और शह्य बजाने लगे। उनका शह्यनाद सेनापति धृष्टद्युम्नसे नहीं सहा गया। वह बड़ी उतावलीके साथ हाथीको ओर बढ़ा। उसे आते देख शाल्वने द्वुपद-धुवका वध करनेके लिये हाथीको उसीकी ओर दौड़ाया।

तब धृष्टद्युम्नने तीन भयंकर नाराचोंमें हाथीको बंध डाला; फिर, उसके कुम्भस्थलको सज्य करके उसने पाँच सौ नाराच ओर मारे। हाथी उन प्रहारोंसे धायल होकर पीछेकी ओर भागा, किन्तु शाल्वने सहसा उसे लौटाकर धृष्टद्युम्नके रथकी ओर बढ़ा दिया। नागराजको पुनः अपनी ओर आता देख धृष्टद्युम्न मयसे घबरा गया और हाथमें गदा से बड़े वेगके साथ रथसे बूढ़ पड़ा। इतनेमें हाथीने रथके पास पहुँचकर घोड़ों और सारथिकों कुचल डाला; फिर जोर-जोरसे गर्जना करते हुए उसने रथको सूँडसे उठाकर जमीनपर पटक दिया।

उस समय पाञ्चालराजदुर्षोणके शाल्वके हाथीसे पीड़ित देख भीमसेन, शिशुपदी और सात्यकि सहसा उसके पास दौड़े आये। आते ही उन्होंने अपने बाणोंसे हाथीका वेग रोक दिया। उन महारथियोंके द्वारा अपनी प्रगति रक जानेसे हाथी विचलित हो उठा; इसी समय राजा शाल्वने बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। उसके साथियोंकी मार खाकर पाण्डव रथी इधर-उधर भागने लगे। शाल्वका यह पराक्रम देख पाञ्चालों और सञ्जयोंने हाहाकार करते हुए उसके गजराजको चारों ओरसे घेर लिया। तदनन्तर, धृष्टद्युम्नने बड़े वेगसे धावा किया और उस पर्वताकार हाथीके ऊपर गदाकी चोट करके उसे बर्त धायल कर दिया।



उत्त आघातसे हाथीका कुम्भस्थल फट गया और वह चिन्घाड़ कर मूलसे रक्त वमन करता हुआ धराशायी हो गया। इतनेहीमें सात्यकिने एक तीक्ष्ण भल्लसे शाल्वका त्तिर घड़से अलग कर दिया। तब वह म्लेच्छराज उत्त नागराजके साथ ही धरतीपर गिर पड़ा।

शाल्वके मारे जानेपर आपकी सेनाका व्यूह टूट गया— तब सैनिक तितर-वितर हो गये। यह देख महारथी कृतवमनि आगे बढ़कर शत्रुओंकी सेनाको रोक दिया। उसे रणभूमिमें डटा हुआ देख आपके भागे हुए सैनिक भी लौट आये। उस समय प्राणोंकी भी परवा न करके लौटे हुए कौरवोंका पाण्डवोंके साथ घोर युद्ध होने लगा। कृतवमनकी युद्ध-कला आश्चर्यजनक थी। अकेला होनेपर भी उसने समस्त पाण्डव-सेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया। कौरव हर्षमें भरकर सिंहनाद करने लगे। उनको गर्जना सुनकर पाञ्चाल योद्धा धरार् उठे। इतनेमें महाबाहु सात्यकि वहाँ आ पहुँचा। आते ही उसकी राजा क्षेमधूर्तसे मूठभेड़ हुई। सात्यकिने सात बाण मारकर उन्हें तत्काल यमलोक पहुँचा दिया।

यह देख कृतवमनि बड़े वेगसे सात्यकिपर धावा किया। फिर दोनों महारथी एक-दूसरेसे भिड़ गये। थोड़ी ही देरमें उत्त युद्धने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अब पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा दूर खड़े होकर दर्शककी भाँति तमाशा देखने लगे। कृतवमनि चार तीखे बाणोंसे सात्यकिके चारों घोड़ोंको बंध डाला। इससे सात्यकिको बड़ा क्रोध हुआ, जतने भी आठ साथकोंसे कृतवमनको घायल कर दिया। तब कृतवमनि सात्यकिको तीन बाणोंसे आहत करके एक बाणसे उसका धनुष काट दिया। सात्यकिने कटे हुए धनुषको फेंककर दूसरा उठाया और कृतवमनके पास पहुँचकर दस बाणोंसे उसके सारथि तथा घोड़ोंको मीतके घाट उतार दिया; फिर रथकी ध्वजा भी काट डाली। अब कृतवमनके क्रोधकी सीमा न रही, जतने सात्यकिको मार डालनेकी इच्छासे उसपर शूलका प्रहार किया किन्तु सात्यकिने अपने तीखे बाणोंसे उत्त शूलको चकनाचूर कर दिया। कृतवमन हक्का-बक्का-सा होकर देखता रह गया।

कृतवमनको इस दशामें पड़ा दैत्र कृपाचार्य दौड़े आये और उसे अपने रथमें बिठाकर रणभूमिसे दूर हटा ले गये। सात्यकि रणमें डटा रहा और कृतवमन रथहीन हो गया—यह देख दुर्योधनकी सेनामें फिरसे भगदड़ पड़ी। परन्तु उस समय इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ दिखायी नहीं पड़ता था; इसलिये आपके सैनिकोंका भागना शत्रुओंको नहीं विदित हो सका। तबके भागनेपर भी दुर्योधन वहाँ डटा रहा। वह बड़े वेगसे शत्रुओंपर दूट पड़ा और अकेला

होनेपर भी समस्त पाण्डव-योद्धाओंको उसने आगे बढ़नेसे रोक दिया। यही नहीं, उसने शिखण्डो, द्रौपदीके पुत्र, केकय, सोमक तथा सूञ्जय—इन सब योद्धाओंको अपने तीखे बाणोंका निशाना बनाया। शत्रुपक्षका एक भी घोड़ा, हाथी, रथ या मनुष्य ऐसा नहीं था, जो दुर्योधनके बाणोंसे अछूता बचा हो। जैसे धूलसे सारी सेना ढकी हुई थी, वैसे ही उसके बाणोंसे भी ढकी दिखायी देती थी। उस समय दुर्योधनने सारी पृथ्वीको बाणमयी कर दिया था। आपके या शत्रुपक्षके हजारों योद्धाओंमें वह एक ही मर्द था। उस युद्धमें आपके पुत्रका अद्भुत पराक्रम देखा गया—समस्त पाण्डव एक साथ मिलकर भी उसे पीछे नहीं हटा सके। उसने युधिष्ठिरको सौ, भीमसेनको सत्तर, सहदेवको पाँच, नकुलको चौंसठ, धृष्टद्युम्नको पाँच, द्रौपदीके पुत्रोंको पाँच तथा सात्यकिको तीन बाणोंसे घायल कर दिया। साथ ही, एक भल्ल मारकर उसने सहदेवका धनुष भी काट डाला।

सहदेवने वह कटा हुआ धनुष फेंक दिया और दूसरा विशाल धनुष हाथमें लेकर दुर्योधनपर धावा किया। उसने दस बाण मारकर दुर्योधनको बंध डाला। तत्पश्चात् नकुलने नौ, सात्यकिने एक, द्रौपदीके पुत्रोंने तिहत्तर, धर्मराजने पाँच और भीमसेनने अस्ती बाण मारकर उसे खूब पीडा पहुँचायी। इस प्रकार चारों ओरसे बाणोंकी बौछार होनेपर भी दुर्योधनने पीछे पंर नहीं हटाया। उस समय उसकी फुर्ती, उसकी सफाई तथा उसकी वीरता सब सीमातीत दिखायी पड़ती थी।

इसी समय शकुनिने युधिष्ठिरके चारों घोड़ोंको मार डाला और उन्हें भी बाणोंसे पीडित किया। तब सहदेव राजाको अपने रथपर बिठाकर रणभूमिसे दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देरमें दूसरे रथपर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ पहुँचे और उन्होंने शकुनिको पहले नौ बाण मारकर फिर पाँच बाणोंसे बंध डाला। इसके बाद वे बड़े जोरसे गर्जना करने लगे।

उधर, उलूक चारों ओर बाणोंकी बौछार करता हुआ नकुलपर जा चड़ा। तब नकुलने भी बाणोंको बड़ी भारी वर्षा की और शकुनिपुत्र उलूकको चारों ओरसे ढक दिया। दूसरी ओर, कृपाचार्यने क्रोधमें भरकर बाणोंकी मारसे द्रौपदीके पुत्रोंको घायल कर दिया। तब वे भी कृपाचार्यको अपने साथकोंसे पीडित करने लगे। इस प्रकार जममें विचित्र युद्ध होने लगा। उस समय हाथी हाथियोंसे, घोड़े घोड़ोंसे और रथी रथियोंसे भिड़ गये। पैदलोंका पैदलोंके साथ मुकाबला होने लगा। फिर तो बड़ा ही भयंकर और घमासान युद्ध छिड़ गया। एक-दूसरेका सामना करते हुए सभी योद्धा गरजने और शस्त्रोंका प्रहार करने लगे।

दोनों सेनाओंका घोर संग्राम और शकुनिका कूट-युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! इस प्रकार वह घोर संग्राम चल ही रहा था कि पाण्डवोंने आपकी सेनामें भगवद् डान दी । उस समय आपका पुत्र दुर्घोधन बड़ी कोशिशमें अपने सैनिकोंको रोककर पाण्डव-सेनासे युद्ध करने लगा । इधर, राजा युधिष्ठिरने तीन बाणोंमें कृपाचार्यको बाँधकर चारों तरफसे घेरकर मार डाला । तब कृतवर्माको तो अस्वस्थामाने अपने रथपर बिठाकर अन्यत्र पहुँचा दिया; किन्तु कृपाचार्य उनका सामना करते रहे । उन्होंने युधिष्ठिरको आठ बाणोंमें घोंघ दिया ।

तदनन्तर, दुर्घोधनने सात सौ रथियोंको राजा युधिष्ठिरका सामना करनेके लिये भेजा । उन रथियोंने युधिष्ठिरपर चारों ओरसे इतनी बाण-वर्षा की कि वे अदृश्य हो गये । उनकी यह करतूत शिष्यण्डी आदि महारथियोंमें नहीं सही गयी । वे अपने-अपने रथोंपर बँटकर युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये वहाँ आ पहुँचे । फिर तो कौरव तथा पाण्डव योद्धाओंमें भयंकर युद्ध छिड़ गया, पानीची तरह सून बहाया जाने लगा, घमेलोककी आवाही बटने लगी । उस समय पाण्डवानों और पाण्डवोंने दुर्घोधनके भेजे हुए उन सात सौ रथियोंको भीतके घाट उतार दिया । तत्पश्चात् पाण्डवोंके साथ आपके पुत्रने महान् युद्ध छेड़ा, बंसा पहले कभी न तो देगा गया और न मुना ही गया था । चारों ओर मर्यादा तोड़कर लड़ाई ही रही थी । दोनों ओरके योद्धा बँटकर मारे जा रहे थे ।

इसी समय शकुनिने कौरव-योद्धाओंमें कहा—'घोरो ! तुमलोग मामनेमें युद्ध करो और मैं पीछेमें पाण्डवोंका संहार करता हूँ ।' इस सलाहके अनुसार जब हमलोग पीछेकी ओर बढ़े तो मदरदेशके योद्धा अत्यन्त प्रसन्न होकर किलकारियाँ भरने लगे । इतनेहीमें पाण्डव फिर हमारे सामने आये और धनुष टंकारते हुए हमलोगोंपर बाण बरसाने लगे । थोड़ी ही देरमें मदराजकी सेना मारी गयी—यह देव दुर्घोधनकी सेना फिर पीठ दिखाकर भागने लगी । तब शकुनिने कहा—'पापियों ! तुम्हारे भागनेसे क्या होगा ? लौटकर युद्ध करो ।'

उस समय शकुनिके पास दस हजार घुड़सवारोंकी सेना भीजूद थी । उसीको लेकर वह पाण्डव-सेनाके विपक्षमें भागवी और गया और सब मिनकर बाणोंकी वर्षा करने लगे । इस आक्रमणसे पाण्डवोंकी विजान सेनाका मोर्चा टूट गया,

वह तितर-बितर हो गयी । राजा युधिष्ठिरने अपनी सेनाकी यह अवस्था देव सहदेवसे कहा—'भैया ! जरा उस सूर्य शकुनिको तो देरों, वह पीछेकी ओरमें प्रहार करके पाण्डव-सेनाका संहार कर रहा है । अब तुम द्रौपदीके पुत्रोंको साथ लेकर जाओ और शकुनिको मार डालो । तबतक मैं पाण्डवालोंके साथ रहकर कौरवोंकी रथ-सेनारो भस्म करता हूँ ।'

धर्मराजकी आज्ञा पाकर सात सौ हाथीसवार, पाँच हजार घुड़सवार, तीन हजार पदल, द्रौपदीके पाँचों पुत्र तथा महाबली सहदेव—इन सबने शकुनिपर धावा किया । उस समय शकुनि पीछेकी ओरमें आक्रमण करके पाण्डव-सैनिकोंका संहार कर रहा था । इन योद्धाओंने पहुँचकर शकुनिकी सेनाके बहुत-से घुड़सवारोंको मार डाला । तब शकुनि थोड़ी ही देरतक सामना करके मरनेसे बचे हुए छः हजार घुड़सवारोंके साथ भाग गया । तदनन्तर, पाण्डव-सेना भी अपने बचे हुए सवारोंके साथ लौट चली । द्रौपदीके पुत्र मतवाले हाथियोंकी सेना लेकर घुट्टघुम्नके पास जा पहुँचे । शेष योद्धा भी जब इधर-उधर बँट गये तो शकुनि घुट्टघुम्नकी सेनाके पारवभागमें जाकर बाणवर्षा करने लगा । फिर तो आपके और शत्रुओंके सैनिक प्राणोंका मोह छोड़कर घोर युद्ध करने लगे । सौ-सौ, हजार-हजार योद्धा एक साथ रणभूमिमें गिरने लगे । तलवारोंमें कटे हुए मस्तक जब धरतीपर गिरते थे तो ताड़के फलोंके गिरनेकी-सी धमाकेकी आवाज होती थी । कटे हुए शरीरों, आपूर्णसहित भुजाओं और जघाओंके गिरनेका घोर शब्द सुनायी पड़ता था ।

इस युद्धका वेग जब कुछ कम हुआ तो थोड़े-से बचे हुए घुड़सवारोंके साथ शकुनि पुनः पाण्डव-सेनापर दूट पड़ा । पाण्डवोंने भी पुत्रों दिताम्पे और पंदल, घुड़सवार तथा हाथीसवारोंको साथ लेकर उसपर धावा कर दिया । पाण्डव विजयके इच्छुक थे, उन्होंने मण्डल बनाकर शकुनिको चारों ओरमें घेर लिया और उसे बाणोंमें बाँधना आरम्भ कर दिया । यह देव आपके सेनाके घुड़सवार, हाथीसवार, रथों और पंदल भी पाण्डवोंकी ओर दौड़े । उस समय जिनके शस्त्र क्षीण हो गये थे, ऐसे बहुत-से पंदल योद्धा सानो और धूमके एक दूसरेको मारकर धराशायी होने लगे । पाण्डव योद्धाओंने जब अधिकांश सेनाका संहार कर डाला तो शकुनि शेष सात सौ घुड़सवारोंको साथ ले

हुरंत दुर्योधनकी सेनामें पहुँचा और अश्वियोंसे पूछने लगा—
‘राजा कहाँ हैं ? योद्धाओंसे उत्तर दिया ‘जहाँसे यह
मेघकी गर्जनाके समान तुमूल आवाज आ रही है, वहीं
कुहराज खड़े हैं, आप शीघ्रतापूर्वक जाइये, वहाँ वे मिल
जायेंगे।’

उनके ऐसा कहनेपर गङ्गुनि, जहाँ धीरोंसे घिरा हुआ
दुर्योधन खड़ा था, वहीं गया। रथियोंके बीचमें राजा
दुर्योधनकी देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब
सैनिकोंका हर्ष बढ़ाता हुआ दुर्योधनसे कहने लगा—‘राजन् !
मैंने पाण्डव-भक्तके घृद्धसवारोंको परास्त कर दिया, अब तुम
भी इस रथसेनाका संहार कर जाओ; क्योंकि प्राण-न्याय किये
बिना युधिष्ठिर हमारे बशमें नहीं आ सकते। इनके द्वारा
मुरझित रथसेनाका नाश हो जानेपर हम हाथियों और
पँडुओंका भी सहाया कर डालेंगे।’

गङ्गुनिकी बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पाण्डव-
सेनापर दूढ़ पड़े। सबने धनुष उठाया और तरकसोंका मूँह
खोल दिया। कुछ ही देरमें शूरवीरोंके सिंहावादके साथ ही
उनके धनुषोंकी सवेंकर टंकारें सुनायी देने लगीं।



अर्जुनद्वारा श्रीकृष्णसे दुर्योधनकी अनीतिका कुपरिणाम बताया जाना तथा कौरवोंकी रथसेना और गजसेनाका संहार

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर, कौरववीरोंको बड़े
वेगसे धनुष उठाये देव अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा—
‘जनादंभ ! आप घोड़ोंकी हाँकिये और इस सैन्य-सागरमें
प्रवेग कीजिये। आज मैं तीखे बाणोंसे शत्रुओंका अन्त कर
डालूँगा। इस संग्रामके आरम्भ हुए आज अठारह दिन हो
गये। कौरवोंके पास समुद्र-जैसी अथार सेना थी, तो हम
लोगोंके पास आकर अब गायके खुरकी-सी हो गयी। मुझे
आगा थी कि पितानह भीष्मके मारे जानेपर दुर्योधन संधि
कर लेगा, किन्तु उस मूर्खने ऐसा नहीं किया। भीष्मजीने
नच्छी और हितकर बात बतायी थी, किन्तु बुद्धि मारी जानेके
कारण उसने उसे भी नहीं स्वीकार किया। फिर क्रमशः
आचार्य द्रोण, कर्ज और विकर्ण आदिके मारे जानेपर बहुत
योद्धा-सी सेना बच रही है, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ।
भूरिधवा, शल्य, शाल्व तथा अन्ल्लिके राजकुमार मारे गये,
फिर भी इन मार-काण्डका अन्त न हो सका। जयद्रथ,
बह्मिष्णु, राक्षस अनायुध, सोमदत्त, वीरवर भगवत्त,
काम्बोजराज तथा दुःशासनकी मृत्यु हो जानेपर भी यह

संहार न रुक सका। मया भीमसेनके हाथसे अनेकों
अवीहिणीपति मारे गये—यह देखकर भी लोन या मोहके
कारण सड़ाई बंद नहीं हुई। जिसको अपने हिताहितका ज्ञान
है, जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरव होगा जो शत्रुको गुण,
बल और वीरतामें अपनेसे अधिक जानकर भी उससे लोहा
लेनेका साहस करेगा ? आपने भी पाण्डवोंसे संधि करनेके
विषयमें उससे हितकारक वचन कहा था, किन्तु वह उसके
मनमें नहीं बँठा। जब आपकी ही बातपर वह ध्यान न दे
सका तो दूसरेकी कंठे सुन सकता था ? जिसने संधिके
विषयमें कहनेपर भीष्म, द्रोण और विदुरकी भी बात टाल
दी, उसे राहपर लागेके लिये अब और कौन-सी दवा है ?
जिसने मूर्खतावश अपने बड़े पितानकी बात नहीं मानी,
हितकी बात बतानेवाली माताका अपमान किया, उसे और
किसीकी बात कंठे अच्छी लगेगी ? निश्चय ही, दुर्योधनका
जन्म इस कुलका अन्त करनेके लिये हुआ है। महात्मा विदुरने
मुझसे बहुत बार कहा था कि ‘दुर्योधन अपने जीते-जी तुम
लोगोंको राज्यका भाग नहीं देगा। सदा ही तुम्हारी बराई

किया करेगा। उसकी युद्धके सिवा और किसी प्रकार जीतना असम्भव है।' आज ये सारी बातें सत्य जान पड़ती हैं। जिस मूलने भगवान् परमपूजार्थोंके मूलसे वधार्थ और हितकर वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी, यह तो निश्चय ही विनाशके मूलमें स्थित है। दुर्योधनके जन्म सेने ही बहुतेरे सिद्ध पुरुषोंने कहा था कि 'इस दुरात्माके कारण क्षत्रियकुलका महान् संहार होगा।' उनकी बात आज सत्य हो रही है; क्योंकि दुर्योधनके लिये ही यहाँ असंख्य राजाओंका संहार हुआ है। अतः आज मैं समस्त कौरव-योद्धाओंका वध करूँगा। आप भूमे दुर्योधनकी सेनामें से चलिए, जिससे उसको और उसकी सेनाको मैं अपने तीरे बाणोंका निशाना बना सकूँ।"

घोड़ोंकी बाणझेर हारमें लिये भगवान् श्रीकृष्णसे जय अर्जुनने उद्युक्त वात कही तो उन्होंने घोड़े बढ़ा दिये और निर्भय होकर शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश किया। उस समय अर्जुनके सफेद घोड़े चारों ओर दिसाये पड़ते थे। फिर, जैसे बादल पानीकी धारा बरसता है, उसी प्रकार अर्जुन बाणोंकी बीछार करने लगे; उनके छोड़े हुए बाण योद्धाओंके कवच फाड़कर वस्त्रके समान घोट करते हुए धरतीपर गिर जाते थे। उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों और हाथियोंको प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा। अर्जुनके बाणोंपर उनका नाम द्रुदा हुआ था, उनके चलाये हुए बंसे बाणोंमें मानो सारा जगत् आच्छादित हो गया। जैसे घघकती हुई आग घासकी ढेरोंकी जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रु-सैनिकोंको भस्म करने लगे। वे मनुष्य, घोड़ा अथवा हाथीपर दुबारा बाण नहीं छोड़ते थे, उनके एक ही बाणसे सबका काम समाप्त हो जाता था। अनेकों प्रकारके सायकोंकी वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके पुत्रकी सेनाका संहार कर डाला।

यद्यपि कौरव-योद्धा रणमें पीठ नहीं दिखानेवाले शूरवीर थे और पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहे थे, तो भी अर्जुनने अपने गाण्डीवसे उनके विजयके संकल्पकी ध्वज कर दिया। धनुस्त्रयके बाण वस्त्रके समान असह्य और अत्यन्त तेजस्वी थे; उनकी मार पड़नेसे आपकी सेना साहस से बंटी और दुर्योधनके देवते-देवते रणभूमिमें भाग ली। उस समय कोई पिताको पुकारते थे, कोई सहायकोंको। कुछ लोग अपने भाई-बन्धु और सम्बन्धियोंको जहाँ-कहाँ-सहाँ छोड़कर भाग गये। बहुत-से महारथी पार्थके बाणोंसे अत्यन्त घायल हो जानेके कारण मूर्च्छित हो रणभूमिमें ही पड़े-पड़े उच्छ्वास से रहे थे। उनको दूसरे लोग रथपर चढ़ाकर घड़ी-बो-घड़ी आर्यासन देते थे। कुछ लोग उन घायलोंको बंसे ही छोड़कर आपके पुत्रकी आत्माका पालन करते हुए युद्धके लिये चले जाने लगे।

बहुतेरे घोड़ा स्वयं पानी पीकर घोड़ोंकी भी पचावट दूर करते, उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाने थे। कुछ लोग अपने भाइयों, पुत्रों अथवा पिताओंकी धीरज दे उन्हें छावनोंमें ही छोड़कर युद्धके लिये निकल पड़ते थे। कोई-कोई अपने रथको रण-सामग्रीसे सजाकर पाण्डव-सेनामें प्रवेश करते थे।

इस प्रकार कौरवपक्षके योद्धाओंने पाण्डव-सेनापर चढ़ाई करके घट्टघुम्नके साथ युद्ध छेड़ दिया। उधरसे घट्टघुम्न, सिपण्डो और शतानीक—ये लोग आपके रथसेनाका सामना करने लगे। उस समय घट्टघुम्नको बड़ा शोध हुआ। वह अपनी विगाल सेनाके साथ आपके सैनिकोंका संहार करनेको तैयार हो गया। यह देख आपके पुत्रने उसके ऊपर नाना प्रकारके बाणोंकी भड़ी सपा दी। तब घट्टघुम्नने भी नाराच, अर्धनाराच और वसुधन्त आदि शो प्रणामों बाणोंसे दुर्योधनको भूजाओं और छातीपर प्रहार किया। घट्टघुम्न आपके पुत्रके प्रहारसे पहले बहुत घायल हो चुका था, इसलिये उसने दुर्योधनको बंधककर उसके चारों घोड़ोंकी भी भीतके घाट उतार दिया; फिर एक मल्ल मारकर उसके सारसंधिका मस्तक भी धड़से अलग कर दिया। अब दुर्योधन दूसरे घोड़ोंकी पीठपर चढ़कर शकुनिके पास भाग गया।

इस प्रकार जब रथसेनाका संहार हो गया, उस समय हमारे पक्षके तीस हजार हाथीसवारोंने आकर पांचों पाण्डवोंको चारों ओरसे घेर लिया। भगवान् श्रीकृष्ण जिनके



सार्थ है, वे अर्जुन पर्यन्तकार गजराजोंसे घिरकर उन्हें अपने तीखे नाराचोंका निशाना बनाने लगे। वहाँ हमने देखा, उनके एक ही बाणसे विदीर्ण होकर बड़े-बड़े गजराज धराशायी हो रहे हैं। दूसरी ओरसे महायन्त्री भीमसेन भी अपने रथसे कूदे और बहुत बड़ी गदा हाथमें लेकर दण्डधारी यमराजकी भाँति उन हाथियोंपर दूट पड़े। उन्हें गदा हाथमें लिये देख आपके सैनिक थर्रा उठे, उनका मन-मूत्र निकल पड़ा और सबपर उद्वेग छा गया। भीमकी गदाके आघातसे हाथियोंके कुरुरश्मि फूट जाते और वे धूलमें भरे हुए दण्ड-उधर भागते दौड़े जाते थे। कितने ही हाथी गदाकी चोटसे आहत हो चिन्मग्न कर गिर पड़ते थे। गजसेनाकी यह दुर्दशा देख आपके सारे सैनिक भयसे काँप उठे। इसी प्रकार युधिष्ठिर और मकुन्द-सहदेव भी आपके हाथीसवारोंको यमलोक भेज रहे थे।

इसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्नि रथसेनामें दुर्योधनको दृष्टा, जब वह नहीं मिला, तो उन्होंने वहाँ सड़े हुए क्षत्रियोंके पूछा—'राजा दुर्योधन कहाँ गये?' उत्तर मिला—'सार्थिके मारे जानेपर वे पाञ्चालराजकी दुर्द्धम सेनाका सामना करना छोड़ शकुनिके पास चले गये हैं।'

भीमद्वारा धृतराष्ट्रके वारह पुत्रोंका वध, श्रीकृष्ण और अर्जुनकी वातचीत तथा अर्जुनद्वारा त्रिगर्तोंका संहार

राज्यप्र कहेते हैं—महाराज! हाथियोंके समुदायका नाश हो जानेपर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओंका संहार करने लगे। वे प्रोधमें भरे हुए दण्डधारी यमराजकी भाँति हाथमें गदा लिये रणभूमिमें विचर रहे थे। उस समय दृष्टनेपर भी जब दुर्योधनका कहीं पता न लगा तो मरनेसे बचे हुए आपके पुत्र भीमसेनपर दूट पड़े। दुर्योधन, श्रुतान्त, जंब, भूरिवल, रथि, जयसेन, युजाल, दुर्विपह, दुर्विमोचन, दुष्प्रथम तथा श्रुतवर्नि धाया करके भीमको चारों-ओरसे घेर लिया। तब भीमसेन पुनः अपने रथपर जाँवटे और आपके पुत्रोंके समर्थकोंमें तीखे बाणोंका प्रहार करने लगे। उन्होंने एक क्षुरप्र मारकर दुर्योधनका मरतक पाट गिराया। फिर एक भालके द्वारा श्रुतान्तका अन्त कर दिया। तत्पश्चात् हँसते-हँसते जयसेनपर नाराचका प्रहार किया और उसे रथकी बँटकीसे भूमिपर गिरा दिया। मिरते ही उसके प्राण निचल गये।

तब वे तीनों वीर पाञ्चालराजकी उस दुर्द्धम सेनाका व्यूह तोड़कर शकुनिके पास जा पहुँचे। उनके चले जानेपर पाण्डवपक्षके योद्धा आपके सैनिकोंका संहार करते हुए उनपर चढ़ आये। उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्षके बहुत-से योद्धा जीवनमें निराश हो गये। उनका चिह्न फीका पड़ गया। उनके अस्त्र-शस्त्र काम हो गये थे और वे चारों ओरों घिर भी गये थे। उनकी यह दशा देख मैं अन्य चार संहारियोंको साथ लेकर प्राणोंकी परवा न करके पाञ्चालोंकी सेनामें मुद्ध करने लगा। किन्तु अर्जुनके बाणोंसे पीड़ित हो जलिके कारण वहमि हम पाँचोंको भागना पड़ा। तब सेनासहित धृष्टद्युम्नके साथ हमारी मुठभेड़ हुई; किन्तु द्रुपदकुमारने हम सब लोगोंको परास्त कर दिया। वहाँसे भागकर जब हम दूसरी ओर आये तो संहारथी साहसिक दिगामी पड़ा। वह विलकुल पास आ गया था। मुझे देखते ही उसने चार सौ रथियोंके साथ धावा कर दिया। धृष्टद्युम्नके चंगुनसे फिती तरह निकला तो साहसिकी सेनामें आ पँचा। थोड़ी देरतक वहाँ बड़ा शयंकर संघाम हुआ। साहसिकले मेरी सारी मुष्ट-सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ लिया। इतनेमें भीमसेनकी गदा और अर्जुनके नाराचोंसे वहाँ मारी गजसेनाका संहार हो गया।

यह देख श्रुतवर्नि पुर्णित हो उठा और उसने भीमको सी बाण मारे। अब भीमसेनका प्रोध और भी बड़ गया। उन्होंने जंब, भूरिवल और रथि—इन तीनोंको अपने तीखे बाणोंका निशाना बनाया। बाणोंकी चोट खाकर वे तीनों संहारथी प्राणहीन हो रथसे नीचे गिर पड़े। इसके बाद भीमने एक तीखे नाराचसे दुरिमोचनको मौतके घाट उतार दिया। फिर दुष्प्रथम और युजालको दो-दो बाण मारकर यमलोक भेज दिया। यह देख दुर्विपह भीमपर चढ़ आया, उसे आते देख भीमने उसके ऊपर भालका प्रहार किया, उससे आहत होकर वह तबके देखते-देखते रथसे गिरा और मर गया।

श्रुतवर्नि जब देखा कि भीमसेनने अकेले ही मेरे बहुत-से भाइयोंका काम तमाम कर डाला तो अमर्षमें भरपूर धनुषकी टंकार करता हुआ वह उनपर दूट पड़ा और उन्हें अपने बाणोंका निशाना बनाने लगा। उसने भीमसेनके धनुषको

काटकर उन्हें भी धीम बाणोंसे घायल कर डाला । तब महारथी भीमने दूसरा धनुष उठाया और आपके पुत्रपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । धृतरथि भी घुबित होकर भीमरथी भुजाओ और छातीमें बाण मारे । इममें भीम बहुत घायल हो गये । उन्होंने अत्यन्त रोषमें भरकर धृतरथि सारथि और चारों घोड़ोंको घमलोक भेज दिया । रथहीन



हो जानेपर धृतरथी डाल और सतवार लेने लगा—इतनेहीमें भीमने धुरप्र मारकर उसका मस्तक धड़से अलग कर दिया । उसके मरते ही आपके सैनिक भयसे विह्वल हो गये और युद्धकी दृष्टासे भीमसेनकी ओर दौड़े । भीमसेन भी उनका गायना करनेके लिये आगे बढ़े । भीमके पास पहुँचकर उन धोरोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया । तब भीमसेन अपने तीले बाणोंसे उन्हें पीटा देने लगे । उन्होंने कबचसे मुसज्जित पाँच सौ महारथियोंका काम तमाम करके सात सौ हाथियोंकी सेनाका सफाया कर डाला । फिर आठ सौ घुड़सवारों और दस हजार पँबलोकों मोतकि घाट उतारकर वे विजयभीमे सुशोभित होने लगे ।

जिस समय भीमसेन आपके पुत्रोका मंहार कर रहे थे, उम समय आपके सैनिकोंका उनकी ओर आँग उठाकर देगनेका भी साहस नहीं होता था । उन्होंने समस्त कौरवों और उनके अनुचरोंको मार भगाया; फिर ताल ठोककर उसकी विषट आवाजसे वे बड़े-बड़े गजराजोंकी मयभीत

करने लगे । उम सड़ाईमें आपके बहूतमें तिसाही काम आये । ओ बने थे, उनरी भी हिम्मत टूट गयी थी ।

महाराज ! दुर्योधन और गुरगंन—ये ही दो आपके पुत्र बचे हुए थे । ये दोनों घुड़सवारोंके बीच सड़े थे । दुर्योधनको वहाँ पड़ा देख देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने



कहा—“अर्जुन ! अब शत्रुओंके अधिकांग घोड़ा मारे जा चुके हैं । वह देखो, सारथिके सञ्जयको रूंद करके लिये आ रहा है । उधर, कृपाचाप, कृतवर्मा और अरयत्पामा—ये तीनों राजा दुर्योधनको अलग छोड़कर रणमें बटे हुए हैं । इधर, प्रमदकोसहित दुर्योधनकी सेनाका संहार करके पाञ्चालराजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सुन्दर कान्तिसे शोभायमान हो रहा है । और वह है दुर्योधन, जो अपनी सेनाका घ्यूह बनाकर रणमें लड़ा है । अर्जुन ! कौरवपक्षके घोड़ा तुम्हें आये देख जबतक भाग नहीं जाते, उसके पहले ही दुर्योधनको मार डालो । इसकी सेना बहुत थक गयी है, अतः इस समय आप्रमण करनेसे यह पापी छूटकर जा नहीं सकता ।”

श्रीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुनने कहा—‘माधव ! धृतराष्ट्रके सभी पुत्र भीमसेनके हाथमें मारे जा चुके हैं, वे दो, जो अभी बचे हुए हैं, वे भी रह नहीं जायेंगे । गनुनिरी सेनामें भी अब पाँच सौ घुड़सवार, दो सौ रथी, तीसरे कुछ अधिक हाथी और तीन हजार ही पँदस बच गये ।

दुर्घोषकी सेनामें अकलत्याग, कुमरवार, विपरीत, उलूक, गहूनि, कुतबनां जाड़े कुछ ही जोड़ा उभे हैं, बाकी सब मारे रहे। अब इनका भी काम था ही पहुँचा है। आज जो मेरे सामने आकर धारा नहीं जायेंगे, वे वैकला ही क्यों न हों, उन सबको मार डालूँगा। आज सारा मगड़ा मनाकी हो जाएगा। दुर्घोषन भी यदि मरवान छोड़कर भाग नहीं गया तो आज अपनी उद्दोलन राक्षससभों तथा प्राणियों हाथ धो बैठेगा। आज जोड़े बड़ाइये, वे सबको अपनी मारे डालता हूँ।

अर्जुनके ऐसा कहतेवर मगकादने दुर्घोषनकी सेनाकी ओर छोड़े बड़ाये, भीमसेन और सहदेवने भी अर्जुनका साथ दिया। तीनों महारथी दुर्घोषनको मार डालनेकी इच्छासे निहताइ करते हुए आगे बढ़े। उस समय आरके पुत्र मुगर्गने भीमसेनका मानता किया। मुगर्ग और गहूनि अर्जुनसे कहने लगे। दुर्घोषन छोड़कर सवार हो सहदेवसे जा निवृत्त। हमने बड़ी युक्ति साथ सहदेवके मन्तकनर एक प्रारमे प्रहार किया। सहदेव उस जोड़े से निवृत्त होकर उसके निचले भागमें बैठ गया, उसका सारा भारों कूटने पर हाँस्य। फिर जोड़े ही वेर में, बढ होगा हुआ, वे बहु जोड़में मरकर दुर्घोषनपर लौटे बाणोंकी बीछार करने का।

उधर, अर्जुन भी जोड़ोंकी पीछर बैठे हुए जोड़ोंकी मन्तक काटकाकर गिराते लगे। उन्होंने बहुतने बाण मारकर मारी सेनाका संहार कर डाला। तबमन्तक, विपरीतों का रथकेपर धावा किया। उन्हें आगे देख सारे विपरीत महारथी एक साथ होकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। तब अर्जुनने सत्यकनको एक सुरप्रसे धारमन्तक उसके रथका हस्ता (ईषा) काट डाला, फिर हमने सुरप्रसे उसका मन्तक भी धड़ते अलग कर दिया। इनके बाद उन्होंने सब जोड़ोंकी सामने ही सन्धेयुको पकड़कर मार डाला। तबपश्चात् प्रत्यक्ष वेगके अधिनाति मुगर्गकी तीन बाणोंमें बीछकर वहाँ एकविध हुए समस्त रथियोंकी अपने बाणोंका निशाना बनाया। फिर, मुगर्गको भी बाण मारकर उसके जोड़ोंकी भी धावत किया, इसके बाद उन्होंने हंसते-हंसते मुगर्गपर उनमंडके समान एक मंडकर बाण



चलाया। उससे उसकी छाती छिन्न गयी और वह प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। इस प्रकार मुगर्गकी मारकर अर्जुनने उसके पैतालीस पुत्रोंको भी नातके धाव उतार दिया। फिर उसने समस्त अनुयायियोंको यत्नकीक सेजकर उन्होंने मरनेसे बचाई हुई कारवसेवामें प्रवेश किया।

दूसरी ओर भीमसेनने हंसते-हंसते बाणोंकी वर्षा करके मुगर्गको डक दिया, अब वह दिखायी नहीं पड़ता था। प्रहार करनेकरके उन्होंने एक तीरके सुरप्रसे मुगर्गका मन्तक धड़ते अलग कर दिया। यह देख उसके अनुचरोंने भीमकी चारों ओरसे घेरकर उनपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी।

तब भीमसेनने तेज क्रिये हुए बाणोंकी वर्षा करके उन्हें सब ओरसे आच्छादित कर दिया और एक ही अंगमें सबका संहार कर डाला। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों दलोंके जोड़ोंकी कोई क्षमर नहीं रह गया, दोनों सेनाएँ निरन्तर एक-ही हो गयीं।

शकुनि और उलूकका वध

समस्तय कहने हैं—महारथ ! अर्जुनक संगम उब आरम्भ हुआ। उस समय गहूनिने सहदेवपर धावा किया। सहदेवने भी मुकलपुत्रपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। गहूनिने बाण उसका पुत्र उलूक भी था, उसने भीमसेनकी

सब बाणोंमें बैठ डाला। साथ ही, गहूनिने भी भीमसेनकी तीन बाणोंमें धावत करके सहदेवपर नब्बे बाणोंकी वर्षा की। उस समय दोनों ओरके जोड़ोंमेंद्वारा की हुई बाणोंकी बीछारसे सन्धेयु आच्छादित हो गयीं। क्रोधमें मरे

हुए भीम और सहदेव दोनों वीर संग्राममें भयंकर संहार मचाने हुए बिचर रहे थे। उनके संकड़ों बाणोंसे ढकी हुई जायगी सेना अन्धकारपूर्ण आकाशकी नीति दिवायी पड़नी थी।

इस प्रकार लड़ने-लड़ते जब वीरवोके पास बहुत थोड़ी सेना रह गयी तो पाण्डव योद्धा हथियं भरकर बड़े उन्माहसे उन्हीं यमलोक पहुँचाने लगे। उन्हीं समय शत्रुनिने सहदेवके मस्तकपर प्राप्तका प्रहार किया और सहदेव मूर्च्छित-सा होकर रथकी बंटकमें बंट गया। उसकी यह अवस्था देव प्रतापी भीमने प्रीथमें भरकर शत्रुनिकी सेनाको आगे बढ़ानेमें रोक दिया और नाराबाँसे मारकर संकड़ों एवं हजारों सैनिकोंका संहार कर डाला। इसके बाद उन्होंने बड़े जोरसे सिहनाद किया, जिसे सुनकर हाथी और घोड़ोंमहित समस्त मैनिक बर्रा उठे। उनके मारे वे सहसा भाग चले। उन्हीं भागते देव राजा दुर्योधनने कहा—'अरे पापियो! लोट आओ, भागनेसे क्या लाभ होगा? जो वीर लड़ाईमें पीछे न दिखाकर प्राण-त्याग करता है, वह संसारमें कीर्ति छोड़ जाता है और परलोकमें उत्तम गुण भोगना है।'

उसके ऐसा कहनेपर शत्रुनिके सिपाही भीतनी परवा न करके पुनः पाण्डवोंपर दृढ़ पड़े। यह देव पाण्डव योद्धा भी उनका सामना करनेको आगे बढ़े। इतनेमें सहदेवने भी स्वयं होकर शत्रुनिको दस बाणोंसे बांध डाला और तीन बाणोंसे उसके घोड़ोंको घायल करके हँसने-हँसते उसका धनुष भी काट दिया। शत्रुनिने दूसरा धनुष लेकर सहदेवको साठ और भीमसेनको सात बाण मारे। इसी तरह उलूकने भी भीमके सात और सहदेवको सत्तर बाणोंसे घायल कर डाला। तब भीमसेनने उसे तेज किये हुए सायकोंसे बाँध दिया और शत्रुनिको भी चौंसठ बाण मारकर उसके पारव-रक्षाकोंको तीन-तीन बाणोंका निशाना बनाया।

भीमके नाराबाँसे आहत हुए योद्धा प्रीथमें भरकर सहदेवके ऊपर बाणोंकी बौछार करने लगे। तब सहदेवने एक मत्स्य मारकर अपने सामने आये हुए उलूकका मस्तक काट डाला। उसको तास जमीनपर गिर पड़ी। बेटेकी मृत्यु देखकर शत्रुनिकी बिदुरजीकी बात याद आ गयी। उसका गला भर आया, उबड़गास चलने लगा और यह अपनी भाँलोमें आँसू भरकर दो घड़ितक चिन्तामें डूबा रहा। इसके बाद सहदेवके सामने जाकर उसने तीन बाण मारे, किन्तु सहदेवने अपने सायकोंसे उन्हें काट गिराया और शत्रुनिके धनुषके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब शत्रुनिने सहदेवके ऊपर तलवारका चार किया, किन्तु उसने हँसते-हँसते उस तलवारके भी दो टुकड़े कर दिये। अब शत्रुनिने गदा चलायी, पर उसका चार ताली चला गया, यह जमीनपर

जा पड़ी। इसीसे उसका घोड़ा बहूत बड़ गया और उसने एक भयंकर शक्ति सहदेवके ऊपर छोड़ी; किन्तु सहदेवने बाण मारकर उसके भी तीन टुकड़े कर डाले।

इस प्रकार जब शक्ति भी गूट हो गयी और शत्रुनि भयभीत हो गया तो जायके सैनिकोंपर भी आनेका छा गया। वे सबके-सब शत्रुनिके साथ भाग चले। उन्हीं समय पाण्डव जोर-जोरसे गिहनाद करने लगे। प्रायः सभी दोगध घोड़ा रणने पीछे दिखाकर भाग गये। शत्रुनिको भी तिसरता देव सहदेवने सोचा 'वह मेरा हिस्सा यानी रह गया है—इसका नाम भूके करना है।' यह विचारकर अपना मृत्यु धनुष टंकारते हुए उगने शत्रुनिका पीछा किया और तेज किये हुए बाण मारकर उसे अत्यन्त घायल कर दिया और पहुँचने लगा, 'भूएँ शत्रुनि! तू क्षत्रियधर्ममें स्थित होकर युद्ध कर, पराक्रम दिखाकर पुरयत्नका परिचय दे। उम दिन मनमें पासा फँकते समय तो तू बहुत दुःख हो रहा था, उसका फल आज अपनी आँखों देखा। जिन दुःखमाओंने पहले हमलोगोंका उपहास किया था, वे सब मारे जा चुके हैं, केवल कुलाङ्गार दुर्योधन और उसका मामा तू बाँकी रह गया है। आज तेरा मस्तक अवश्य काट डालूंगा।'

यह कहकर सहदेवने शत्रुनिको दस और उसके घोड़ोंको चार बाण मारे; फिर उसका छत्र, ध्वजा और धनुष काटकर उन्हींने सिहके समान गर्जना की तथा अनेकों सायकोंका



प्रहार करके उसके मर्मस्थानोंको बौध डाला । इससे शकुनिको बड़ा क्रोध हुआ । वह सहदेवको मार डालनेकी इच्छासे दोनों हाथोंमें प्राप्त लेकर उसके ऊपर दूट पड़ा । सहदेवने शकुनिके उठाये हुए प्राप्तको तथा उसे पकड़नेवाली उसकी दोनों गोलाकार भुजाओंको तीन भल्ल मारकर एक ही साथ काट डाला । फिर बड़े जोरसे गर्जना की । तदनन्तर, खूब सावधानीके साथ एक मजबूत लोहेका भल्ल धनुषपर चढ़ाया और उसके प्रहारसे शकुनिका सिर धड़से अलग कर दिया । उसकी मस्तकसहित लाश जमीनपर गिर पड़ी ।

शकुनिकी यह दशा देख आपके योद्धा डरके मारे अपना साहस खो बँटे । उनका मुँह सूख गया, चेतना जाती रही

~*~*~

दुर्योधनका सरोवरमें प्रवेश और युयुत्सुका हस्तिनापुर जाना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर, शकुनिके अनुचर क्रोधमें भर गये और प्राणोंका मोह छोड़कर उन्होंने पाण्डवोंको चारों ओरसे घेर लिया । किन्तु अर्जुन और भीमसेनने उनकी प्रगति रोक दी । वे लोग शक्ति, ऋष्टि और प्राप्त हाथमें लेकर सहदेवको मार डालनेकी इच्छासे आगे बढ़ रहे थे, परन्तु अर्जुनने गाण्डीवके द्वारा उनका संकल्प व्यर्थ कर दिया । उन्होंने भल्ल मारकर उन योद्धाओंकी आयुधोंसहित भुजाओं तथा मस्तकोंको काट डाला और उनके घोड़ोंको भी मौतके घाट उतार दिया ।

इस तरह अपनी सेनाका संहार देखकर राजा दुर्योधनको बड़ा क्रोध हुआ । उसने मरनेसे बचे हुए सब योद्धाओंको एकत्रित किया, उनमें सी तो रथी थे और बाकी कुछ हाथी-सवार, घुड़सवार और पैदल थे । सबके इकट्ठे हो जानेपर दुर्योधनने उनसे कहा—'वीरो ! तुमलोग पाण्डवोंको उनके मित्रोंसहित मार डालो, साथ ही सेनासहित धृष्टद्युम्नका भी संहार कर डालो । इसके बाद शीघ्र मेरे पास लौट आना ।'

दुर्योधनको आज्ञा शिरोधार्य कर वे रणोन्मत्त वीर पाण्डवोंकी ओर दौड़े । उन्हें आते देख पाण्डव भी बाणोंकी घोषार करने लगे । कुछ ही क्षणोंमें वह सेना पाण्डवोंके हाथसे मारी गयी, उसे कोई भी बचानेवाला न मिला । वह युद्धके लिये प्रस्थित तो हुई, मगर भयके मारे ठहर नहीं सकी । पाण्डव-दलके बहुत-से सैनिकोंने मिलकर आपके उन योद्धाओंका कुछ ही क्षणोंमें सफाया कर डाला । उनमेंसे एक भी सिपाही नहीं बचा ।

महाराज ! आपके पुत्रने ग्यारह अक्षौहिणी सेना इकट्ठी

और वे भयभीत होकर अपने-अपने हथियार लिये चारों दिशाओंमें भागने लगे । गाण्डीवकी टंकार सुनकर वे अधमरे हो रहे थे, किसीका रथ टूटा था, किसीके घोड़े मर गये थे और किन्हींके हाथी ही मौतके मुखमें जा चुके थे । ये सब लोग पाँव-प्यादे ही भाग रहे थे । इस प्रकार शकुनिके मारे जानेसे भगवान् श्रीकृष्णके साथ ही समस्त पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए । वे अपने योद्धाओंका हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शङ्ख बजाने लगे । सभी लोग सहदेवके इस कर्मकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, 'वीरवर ! तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा शकुनिको पुत्रसहित मार डाला, यह बड़ा ही अच्छा हुआ ।'

की थी, किन्तु पाण्डव और सृञ्जयोंने सबका अन्त कर डाला । आपकी ओरसे लड़नेवाले हजारों राजाओंमें केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखायी पड़ा, वह भी बहुत घायल हो चुका था । उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, किन्तु सारी पृथ्वी सूनी दिखायी पड़ी । दुर्योधनने जब अपने-



को सब योद्धाओंसे रहित अकेला पाया और पाण्डवोंकी सफलमनोरथ एवं प्रसन्न देखा तो उसे बड़ा शोक हुआ ।

उसके पास न सेना थी न सवारों, इसलिये वह भाग जानेका विचार करने लगा ।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जय मेरे सब सैनिक मार डाले गये और सारी छावनी मूनी हो गयी, उस समय पाण्डवोंके पास कितनी सेना बच गयी थी ? अकेला हो जानेपर मेरे मूल्य पुत्र दुर्योधनने क्या किया ?


सञ्जयने कहा—महाराज ! उस समय पाण्डवोंके पास दो हजार रथों, सात सौ हाथीसवार, पाँच हजार घोड़सवार और दस हजार पदल थे । उनकी इतनी सेना अभी बची हुई थी । राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समरभूमिमें कोई भी अपना सहायक नहीं दिखायी पड़ा तो अपने मरे हुए घोड़ोंको यहाँ छोड़कर वह पूर्व दिशाकी ओर पदल ही भागा । जो एक दिन ग्यारह अश्विहिणो सेनाका मालिक था, वही दुर्योधन अब गदा लेकर पदल ही सरोवरकी ओर भागा जा रहा था । अभी घोड़ी ही दूर गया था कि उसे धर्मात्मा विदुरजीकी कही हुई बातें याद आने लगीं । उसने सोचा—'अहो ! हमारा और इन क्षत्रियोंका जो यह महान् संहार हुआ है, इसे महावृद्धिमान् विदुरजीने पहले ही जान लिया था ।' इस प्रकारकी बातें सोचता हुआ वह सरोवरमें प्रवेश करनेके लिये बढ़ता चला गया । उस समय अपनी सेनाका संहार देखकर उसका हृदय शोकसे संतप्त हो रहा था ।

राजन् ! दुर्योधनकी सेनामें कई लाख वीर थे, किन्तु उस

समय अवस्थामा, कृतवर्मा तथा कृपाचार्यके सिवा कोई भी जीवित नहीं दिखायी पड़ता था । मुझे कंधमें पड़ा देल घृष्टघुम्नने सात्यकिसे हँसकर कहा—'इसको कंध करके क्या करना है, इसके जीवित रहनेसे अपना कोई साम तो है ही नहीं ।' उसकी बात सुनकर सात्यकिने मेरा वध करनेके लिये तीली तलवार उठायी; किन्तु धीरेधीरे व्यासजीने सहसा वहाँ प्रकट होकर कहा—'सञ्जयको जीवित छोड़ दो, इसे किसी तरह मारना नहीं ।'


व्यासजीकी बात सुनकर सात्यकिने मुमते कहा—'सञ्जय ! जा, अपना कल्याणसाधन कर ।' उसकी आता पाकर संध्याके समय में यहाँसे हस्तिनापुरके लिये प्रस्थित हुआ । उस समय मेरे पास न कवच था, न कोई हथियार । चलते-चलते जब मैं एक दोस इधर आ गया तो गदा हाथमें लिये दुर्योधनको अकेला खड़ा देला, उसके सरोवरपर बहुतसे घाव हो गये थे । मूकपर दृष्टि पड़ते ही उसकी आँसुओंमें आँसू भर आये, वह अच्छी तरह मेरी ओर देख न सका । मैं भी उसे उस अवस्थामें देख शोकमें डूब गया, कुछ देरतक मेरे मँहसे भी कोई बात नहीं निकल सकी ।

तदनन्तर मैंने अपने कंध होने और व्यासजीकी कृपासे जीते-जी छुटकारा पानेका समाचार कह मुनाया । सुनकर वह घोड़ी देरतक कुछ सोचता रहा, इसके बाद उतने अपने भाइयों और सेनाका हाल पूछा । मैंने भी जो कुछ आँसुओं



दिया था, वह सब बातें दिया और कहा—“राजन् ! तुम्हारे भाई मारे गये और सारी सेनाका संहार हो गया। रणभूमिसे चन्ते समय ध्यामजीने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्षमें तीन ही महारथी बच गये हैं।”


यह सुनकर उनसे कहा—‘सञ्जय ! तुम प्रजाचक्षु महाराजसे जाकर कहना कि ‘आपका पुत्र दुर्योधन उस महासंग्रामसे जीवित बचकर पानसे भरे हुए सरोवरमें सो रहा है, वह बहुत घायल हो चुका है।’ यों कहकर दुर्योधनने उस सरोवरमें प्रवेश किया और मायासे उसका पानी बांध दिया। हमके बाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले; इन तीनों महारथियोंके छोड़े बहुत थक गये थे। भेरे पास आकर उन्होंने कहा—‘सञ्जय ! मांभायकी बात है कि तुम जीवित हो।’ फिर वे लोग आपके पुत्रका समाचार पूछते हुए बोले—‘सञ्जय ! क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित है?’



तब मैंने उन लोगोंसे दुर्योधनका कुशलसमाचार बताया तथा दुर्योधनने मुझे जो संदेश दिया था वह भी कह गुनाया और वह जिस सरोवरमें घुसा था उसे भी दिखा दिया। मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देरतक वहाँ चिलाप करते रहे, किन्तु पाण्डवोंको रणमें लड़े देव वहाँसे भाग चले। उन्होंने मुझे भी कृपाचार्यके रथपर बिठा लिया। फिर सब लोग छावनीपर आये। सूर्यास्त निकट था, छावनी-

के पहरेदार घबराये हुए थे; आपके पुत्रोंका मरण सुनकर वे सब एक साथ रो पड़े। तदनन्तर, स्त्रियोंकी रक्षामें नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषोंमें राजरानियोंकी साथ लेकर नगरकी ओर प्रस्थान करनेका विचार किया। बंचारी रानियाँ पतियोंके मरणका समाचार सुनकर क्रुरीके समान विलाप करने लगीं। वे हाय ! हाय ! करती हुई हाथोंसे सिर और छाती पीटने लगीं। उनका कण्ठध्वन चारों ओर फैल गया।

राजमन्त्री व्याकुल हो उठे, उनका गला भर आया; वे रानियोंकी साथ लेकर नगरकी ओर प्रस्थित हुए; साथमें



रक्षा करनेके लिये छोड़ीदार सिपाही भी थे। रक्षा करनेवाले सिपाही रथपर बैठकर अपनी-अपनी स्त्रियोंकी साथ ले नगरकी ओर जा रहे थे। राजमहलमें रहनेपर जिन रानियोंकी सूर्य भी नहीं देख पाते थे, उन्हें ही नगरको जाते समय साधारण लोग भी देख रहे थे। उस समय खाले और भेड़ चरानेवालेतक भीमसेनके डरसे नगरकी ओर भाग रहे थे।

उस भगदड़के समय युयुत्सु शोकसे मूर्च्छित हो मन-ही-मन सोचने लगा—‘भयंकर पराक्रम करनेवाले पाण्डवोंने ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके स्वामी राजा दुर्योधनको पड़ास्त कर दिया, उसके सब भाइयोंको मार डाला और भीष्म एवं द्रोण-जैसे कीरव चीर भी मौतके घाट उतर गये। भाग्यवश केवल मैं बच गया हूँ। दुर्योधनके मन्त्री रानियोंकी साथ

मेकर नगरकी ओर भागे जा रहे हैं। अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिष्ठिर तथा भीमसेनसे पूछकर उनके साथ नगरमें चला जाऊँ।' यह सोचकर उसने युधिष्ठिर और भीमसेनसे अपना मनोभाव प्रकट किया। राजा युधिष्ठिर उन्हें



वसानु हैं, मुमुक्षुको बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे छातीसे लगाकर उन्हीं जानेकी आज्ञा दे दी।

तब मुमुक्षुने अपने रथमें बैठकर घोड़ोंको बढ़ा तेजीके साथ हाँका और राजरानियोंको भी साथ लेकर नगरमें प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। नगरमें पहुँचने ही उमरा गला भर आया, आँसुमें आँसुओंकी धारा बह चली। इसी अवस्थामें उसे विदुरजी मिल गये, उसे देखने ही विदुरजीके नेत्रोंमें भी अभ्रप्रवाह जा रही गया। वे विनीत भावमें सामने लड़के हुए मुमुक्षुने बोले—'बेटा ! इस कुरवंगका संहार हो जानेपर भी तुम अभी जीवित हो—यह बड़े सोमाप्यकी बात है ? किन्तु राजा युधिष्ठिरके नगरमें प्रवेश करनेमें पहले ही तुम यहाँ बंसे आ गये ? इसका कारण विस्तारपूर्वक बताओ।'

मुमुक्षुने कहा—'नान ! अपने जाति, भाई और पुत्रके साथ जब मामा शत्रुनि मारे गये, उस समय राजा दुर्बोधन रक्षकोंमें रहित हो जानेके कारण अपने मरे हुए घोड़ोंको बढ़ा छोड़ टारके मारे पूर्व दिशाकी ओर भाग गये। उनके भागने ही छावनीके सब लोग दहशत भागने लगे।

किर त्रिव्योक्त रक्षक भी राजा और उनके भाइयोंकी रानियोंकी गवागोपर घिटावर भाग चले। तब मैं भी राजा युधिष्ठिर और भगवान् भीष्मपुत्रके पूछकर भागने हुए लोगोंकी रक्षाके लिये हतितानुगत आ गया।

मुमुक्षुकी बात सुनकर विदुरने गोवा, 'इसने यही बाम किया है, जो ऐसे अथमरपर उचित था।' धनः वे बहुत



प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करने हुए बोले—'बेटा ! यह ठीक ही हुआ है। दवानु होनेके कारण तुमने अपने कुलधर्मकी रक्षा की है। उस सहरकागरे संग्राममें धात्र तुमने मनुमान लौटे देवकर मरने बड़ा आनन्द लिया है। अपने अर्थ विनाके तुमने सारी सहाये की। विदुरने बड़बड़ दुःख पाने हुए राजा धनराज्यको छेपे देनेके लिये बेशक तुमही जीवित हो। आज यहाँ रहकर विद्याम करो, बम भवरे ही युधिष्ठिरके पास चने जाना।'

यह बड़बड़ विदुरजी आँसु बराने हुए बोले। उन्होंने मुमुक्षुको रात्रमचनमें बैठकर स्वयं भी प्रवेश किया। उस समय यहाँ नगर और प्रान्तके लोग पृथक्चित होकर बड़े दुःखमें हाहाकार कर रहे थे। वह सचन आनन्दपूर्ण और शीतल दिशादी देना था। रात्रमचनकी पर प्रशंसा देकर विदुरजीको बड़ा बच्य हुआ। वे मर-ही-भन दिवस ही धीरे-धीरे उच्छ्वास सेने हुए स्वयं मीठकर नगरमें चने गये। मुमुक्षुने वह रात्र अपने ही धर्ममें रहकर स्वयं

व्याधोंसे दुर्योधनका पता पाकर युधिष्ठिरका सेनासहित सरोवरपर जाना और कृपाचार्य आदिका दूर हट जाना

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! पाण्डवोंने रणभूमिमें जब हमारी सारी सेनाका संहार कर डाला, उस समय वंचे हुए महारथी कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामाने क्या किया ? और मूल्य दुर्योधनने कौन-सा काम किया ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! जब राजरानियाँ नगरकी ओर चल दीं और शिविरके दूसरे लोग भी पलायन कर गये, उस समय सारी छावनी सूनी देखकर उन तीनों महारथियोंको बड़ा दुःख हुआ । अब उस स्थानपर मन न लगा ; इसलिये वे भी सरोवरकी ओर ही चल दिये ।

उधर, धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयोंको साथ लेकर दुर्योधनका घघ करनेके लिये इधर-उधर विचरने लगे, किन्तु बहुत हँड़नेपर भी वे उसका पता न पा सके । इधर, उनके वाहन बहुत थक गये थे, इसलिये समस्त पाण्डव अपनी छावनीमें जाकर सैनिकोंसहित विश्राम करने लगे ।

तदनन्तर कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा उस सरोवरपर गये, जहाँ दुर्योधन सो रहा था । वहाँ पहुँचकर वे उससे बोले—‘राजन् ! उठो और हमलोगोंको साथ लेकर युधिष्ठिरसे युद्ध करो या तो विजयी होकर पृथ्वीका राज्य भोगो या रणमें प्राण देकर स्वर्ग प्राप्त करो । पाण्डवोंकी भी सारी सेनाका तुमने संहार कर दिया है, जो सैनिक बच गये हैं, वे भी बहुत घायल हो चुके हैं । अब वे तुम्हारा वेग नहीं सह सकते । हम सर्वथा तुम्हारी रक्षा करेंगे । इसलिये तुम युद्धके लिये तैयार हो जाओ ।’

दुर्योधन बोला—‘जहाँ इतना बड़ा नर-संहार हुआ है, यहाँसे आपलोगोंको बचकर आये देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । अवश्य ही हमलोग शत्रुओंपर विजय पायेंगे ; किन्तु यह तभी हो सकता है, जब कुछ समयतक विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर लें । आपलोग भी बहुत थक गये हैं और मैं भी विशेष घायल हो चुका हूँ । उधर पाण्डवोंका बल और उत्साह बढ़ा हुआ है । इसलिये इस समय उनके



साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है । आज एक रात यहाँ विश्राम करके कल आपलोगोंको साथ लेकर शत्रुओंसे युद्ध करूँगा ।

सञ्जय कहते हैं—दुर्योधन के ऐसा कहनेपर अश्वत्थामाने कहा—‘राजन् ! तुम्हारा कल्याण हो । उठो, हमलोग अवश्य अपने शत्रुओंको जीतेंगे । मैं अपने यज्ञ-याग, दान, सत्य तथा जप आदि पुण्यकर्मोंकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ, आज मैं सौमकोंको अवश्य मार डालूँगा । यदि इसी रातमें मैं अपने शत्रुओंका संहार न कर डालूँ तो सत्पुरुषोंको मिलने योग्य यज्ञका फल मुझे न मिले ।’

इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे, उसी समय मांसके घोमसे थके हुए कुछ व्याधे पानी पीनेके लिये अकरमाद् वहाँ आ पहुँचे । उनकी भीमसेनके प्रति बड़ी भक्ति थी । वहाँ खड़े होकर व्याधोंने उन लोगोंका पता लगाया और उन्हें

विना। उन्हें दुर्घोषवती का भी सुनायी हो। सब देव-
मुन्दर उन्हें तो गार विना कि 'तबका दुर्घोषवत जाये दिया
है, उनका दुष्ट बलोरु भा नहीं है, जो भी वे बहारपी
जने उरुमा रहे हैं।'

अब वे आपसमें सलाह करी लये—'यह तो सल
जाहिर हो गना कि दुर्घोषवत पोतरके बानीमें आ बंडा है।



अतः भीममेनते चलकर कहना चाहिये कि 'दुर्घोषवत बानीमें
तो रहा है।' इससे उन्हें यकी गुरी होगी और हों चरु-गा
घन मिल जायगा। इन मूढ़ो मंसिको डोकर व्यर्थ रूपेण
उठालेने क्या फायदा है ?'

यह निरुचय करके वे बड़े प्रमत्त हुए, उन्हें धनका सोम
जो था। मंसिको बोध मियर उठाया और धारतीकी
ओर चल दिये। उधर, पारुबोने भी दुर्घोषवतका पना
सगानेके गिये चारों ओर जागुल खाने दिये थे; किन्तु लड़ने
गोटकर गरी बचाया कि 'कह करीं भोग गया, उरुमा कुष्ट
पना ही नहीं धरना।' जासुगोकी भाव सुनकर गारुको बड़ी
चिन्ता हुई।

उरुमा पना न कपडोस लणत सावरथ दुराग हीकर

बंडे से कहलिये लणत उरु भा बण्डे। उरुको भीयनेके
बाब उरुकर जो कुष्ट बडा होत-उरुमा का सब कन सुआया।



तब भीममेनते उन्हें बहुत सा भय डेकर मिसा विना भी
धोरामने आकर कहा—'महाबाम। जिसके भिये भाव
किताबीं पड़े हैं, उस दुर्घोषवतका पना ब्यापीडिता गना
गया। यह भागते गानी बीयकर भीयनेके भी कहा है।' यह
शिय गमाचार सुनकर पारुगोसलत मूणितकर बहुत लणत
हूँ और भोगवापु स्त्रीकणकी भाव कथ मूलत साधवकी
ओर चल दिये। उनके भाव सोमक क्षान्त्य भी है। अतः
गणप उनके कपीकी धारगारु बड़ी कुलक सुनायी केनी भी।
उस समय अरुम, भीम, लडूम, सवेक, पारुबाम, सारुवी,
उरुमीका, सुधागणु, सावतीक, डोपदीके मूढ भना ही
पारुवाण घोडा जदीसका, लडूमका और हीरु की बकाः
गणप मूणितकर कीष्टेकीष्टे गे। मरु-नर, मरुगाम
मूणितकर लणत भाव उस उरुमा लणत सुधागणु
मंसिकके भाव, कपी कुलक विना भा, जा मंसिक।

मूणितकर लणत उरु मा लणत विना भा, उरुमा लणत
उरुमा मरु लणत मरु लणत मरु लणत मरु लणत मरु लणत
प्रमत्तवापाने दुर्घोषवतें कहा—'उरुमा : ५००'

प्रोभित पाण्डव अत्यन्त आनन्दमें भरकर दूध ही आ रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें तो हमनेंग कुछ देरके लिये हटें साथे।' उनकी बात सुनकर दुर्योधनने कहा—'अच्छा, आप लोग जाइये।' उनसे ऐसा कहकर वह सरोवरके भीतर चला गया और मायासे जलको बाँध दिया। कृपाचार्य आदि महारथी राजाकी आज्ञा लेकर शोकमग्न हो वहाँसे दूर चले गये। रातनेमें उन्हें एक बरगड़का वृक्ष दिखायी पड़ा। वे थके तो थे ही, उसके नीचे बैठ गये और राजा दुर्योधनके विषयमें विचार करने लगे। 'अब युद्ध किस तरह होगा? राजा दुर्योधनकी क्या दशा होगी? पाण्डवोंको दुर्योधनका पता कैसे लगेगा?' यही सब सोचते-सोचते उन्होंने घोड़ोंकी रथसे खोल दिया और सबके-सब वृक्षके नीचे आराम करने लगे।



युधिष्ठिर और दुर्योधनका संवाद, युधिष्ठिरके कहनेसे दुर्योधनका किसी एक पाण्डवसे गदायुद्धके लिये तैयार होना

सञ्जय कहते हैं—महाराज! उस सरोवरपर पहुँचकर युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा—'माधव! देखिये तो यही दुर्योधनने जलके भीतर कौसी मायाका प्रयोग किया है? यह पानीको रोककर यहाँ सो रहा है। यह मायामें बड़ा निपुण है। किन्तु यदि साक्षात् इन्द्र भी इसकी सहायता करने आयें, तो भी आज संसार इसे मरा हुआ ही देखेगा।'

श्रीकृष्णने कहा—'भारत! इस मायावीकी मायाको आप मायासे ही नष्ट कर डालिये; आप भी जलमें मायाका प्रयोग करके इसका चध कीजिये। राजन्! उद्योग ही सबसे अधिक बलवान् है; और कुछ नहीं। उद्योग और उपायोंसे ही बड़े-बड़े ईश्वर, दानव, राक्षस तथा राजा मारे गये हैं; इसलिये आप भी उद्योग कीजिये।'

भगवान्के ऐसा कहनेपर युधिष्ठिरने हँसते-हँसते पानीमें छिपे हुए आपके पुत्रसे कहा—'दुर्योधन! तुमने जलके भीतर किसलिये यह अन्वेषण आरम्भ किया है? समस्त बर्तमानों तथा अपने कुलका संहार कराकर अब अपनी जान बचानेके लिये पौल्वरेमें जा चुके हो? तुम्हारा वह पहलेका

बपं और अभिमान कहाँ चला गया जो डरके मारे यहाँ आकर छिपे हो? सभामें सब लोग तुम्हें शूर कहा करते हैं, किन्तु जब तुम पानीमें घुसे हो तो मैं तुम्हारा वह शौर्य व्यर्थ ही समझता हूँ। जो पौरव-वंशमें जन्म लेनेके कारण सब अपनी प्रशंसा किया करता था, वही युद्धमें डरकर पानीमें कंठे छिपा बैठा है? अभी युद्धका अन्त तो हुआ नहीं, फिर तुम्हें जीवित रहनेकी इच्छा कैसे हो गयी? इस लड़ाईमें पुत्र, भाई, सम्बन्धी, मित्र, मामा तथा चाण्ड्य-जनोंको मरवाकर अब तुम पौल्वरेमें क्यों सो रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा पौरव, कहाँ गया तुम्हारा अभिमान और कहाँ गयी तुम्हारी चञ्चकी-सी गर्जना? तुम तो अरवविद्याके बड़े ज्ञाता थे, कहाँ गया वह सारा ज्ञान? अब तालाबमें कैसे नींद आ रही है? भारत! उठो और क्षत्रियधर्मके अनुसार हमारे साथ युद्ध करो। हमलोगोंको परास्त करके पृथ्वीका राज्य करो अथवा हमारे हाथों मरकर सबके लिये रणभूमिमें सो जाओ।'

धर्मराजके ऐसा कहनेपर आपके पुत्रने पानीमेंसे ही जवाब दिया—'महाराज! किसी भी प्राणीकी भय होना आश्चर्यकी बात नहीं है, किन्तु मैं प्राणोंके भयसे यहाँ नहीं आया हूँ।



मेरे पास न रख है, न भाषा। पाण्डवराज और सारथि भी मारे जा चुके हैं। सेना नष्ट हो गयी और मैं अकेला रह गया; इस बरसाते मुझे कुछ देरतक विश्राम करनेकी इच्छा हुई। राजन्! मैं प्राणिकी रक्षाके लिये या और किसी भयसे बचनेके लिये अथवा मनुष्य विचार होनेके कारण पानीमें नहीं घुसा हूँ; तिरफं बरक जानेके कारण ऐसा किया है। तुम भी कुछ देरतक मुस्ता लो, तुम्हारे अनुयायी भी विश्राम कर लें; फिर मैं उठकर तुम सब लोगोंके साथ लोहा लूंगा।'

मुधिष्ठिरने कहा—गुर्वाधन! हम सब लोग मुस्ता चुके हैं और बहुत देरसे तुम्हें खोज रहे हैं, इसलिये तुम अभी उठकर युद्ध करो। संग्राममें समस्त पाण्डवोंकी मारकर समृद्धिवाली राज्यका उपभोग करो अथवा हमारे हाथसे मरकर योर्वाकी मिलने योग्य पुण्यसौक्यमें चले जाओ।

दुर्वाधन बोला—राजन्! जिनके लिये मैं राज्य चाहता था, वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। पृथ्वीके समस्त पुत्र-पत्नी और क्षत्रियपुंगवोंका विनाश हो गया है; अब यह भूमि विधवा स्त्रीके समान धीहीन हो चुकी है; अतः इसके उपभोगके लिये मेरे मनमें तनिक भी उत्साह नहीं है। हाँ, आज भी पाण्डवों तथा पाण्डवपत्नी जताह भंग करके तुम्हें जीतनेकी आशा रखता हूँ। किन्तु जब द्रोण और कृपा मरना हों गये, पितामह भीम मार डाले गये, तो अब

मेरी दुष्टिमें इस युद्धकी कोई आश्रयता नहीं रही। आजमे यह सारी पृथ्वी तुम्हारी हो गई, मैं इसे नहीं चाहता। मेरे पक्षके सभी योद्धा नष्ट हो गये; अतः अब राज्यमें मेरी रचि नहीं रही। मैं तो मृगच्छाया धारण करके आजमे घनमें ही जानर रहूँगा। मेरे अपने बड़े जानेवाले जब कोई भी मनुष्य जीवन नहीं रहे, तो मैं स्वयं भी जीवन रहना नहीं चाहता। अब तुम जाओ और जिनका राजा मारा गया, घोड़ा नष्ट हो गये तथा जिसके रत्न क्षीण हो चुके हैं, उस पृथ्वीका आनन्द पूर्वक उपभोग करो; क्योंकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा चुकी है।

मुधिष्ठिरने कहा—तात! तुम जलमें धँसे-धँसे प्रताप न करो। मैं इस सम्पूर्ण पृथ्वीको तुम्हारे दानके रूपमें नहीं लेना चाहता। मैं तो तुम्हें युद्धमें जीवनकर ही इसका उपभोग कहूँगा। अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वीके राजा नहीं रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो? जब हमलोगोंने अपने कुलमें शान्ति कायम रखनेके लिये धर्मतः याचना की थी, उसी समय तुमने हमें पृथ्वी क्यों नहीं दे दी? एक बार भगवान् श्रीकृष्णकी बोला जवाब देकर इस समय राज्य देना चाहते हो? यह कौसी पागलपनकी बात है। अब न तो तुम पृथ्वी किसीको दे सकते हो और न छीन ही सकते हो, फिर देनेकी इच्छा क्यों हुई? पहले तो मुझीकी नोक बराबर भी जमाने नहीं देना चाहते थे और आज सारी पृथ्वी देनेकी तैयार हो गये! क्या बात है? पाव है न, तुमने हमलोगोंकी जलानेकी कोशिश की थी, भीमकी चिप त्रितकार पानीमें डबाया और विषधर सांपोसे बँतवाया। इतना ही नहीं, तुमने सारा राज्य छीनकर हमें अपने कष्ट जानका शिकार बनाया। तुम्हारे ही आदेशोंमें द्रोणदीके केश और वस्त्र लींचे गये और स्वयं तुमने उसे गालियाँ मारवायीं। पापी! इन सब कारणोंमें तुम्हारा जीवन नष्ट-सा हो चुका है। अब उठो और युद्ध करो, इसीमें तुम्हारी मलाई है।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! मेरा पुत्र दुर्वाधन स्वभावतः शीघ्री था, जब मुधिष्ठिरने उसे इस तरह फटकारा तो उसने क्या दशा हुई? राजा होनेके कारण वह सबके आदरका पात्र था, इसलिये ऐसी फटकार उसको कभी नहीं सुननी पड़ी थी। किन्तु उस दिन उसको डाँट सहनी पड़ी और यह भी अपने शत्रु पाण्डवोंकी। सञ्जय! बलाभी, जनकी वे बड़ो बाले मुनकर दुर्वाधनने क्या जवाब दिया?

सञ्जय कहते हैं—महाराज! पानीके भीतर धँसे हुए दुर्वाधनकी भाइयोंमहित मुधिष्ठिरने जब इस तरह

फटकारा तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोधसे दोनों हाथ हिलाने लगा और मन-ही-मन युद्धका निश्चय करके राजा युधिष्ठिरसे बोला—'तुम सभी पाण्डव अपने हितैषी मित्रोंको साथ लेकर आये हो, तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं। तुम्हारे पास बहुत-से अस्त्र-शस्त्र होंगे और मैं निहत्था हूँ, तुम रथपर बैठोगे और मैं पैदल हूँ; यही नहीं, तुम्हारी संख्या बहुत है और मैं कहाँ अकेला—ऐसी दशामें मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? युधिष्ठिर! तुम अपने पक्षके एक-एक वीरके साथ मुझे वारो-वारीसे लड़ाओ। एकको बहुतोंके साथ युद्ध के लिये मजबूर करना उचित नहीं है। राजन्! मैं तुमसे या भीमसे जरा भी नहीं डरता। श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा पाञ्चालोंका भी मुझे भय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा सात्यकिकी भी मैं परवा नहीं करता, इनके अतिरिक्त भी तुम्हारे पास जो सैनिक हैं, उनको भी मैं कुछ नहीं समझता। मैं अकेला ही सबको परास्त कर दूंगा। आज भाइयोंसहित तुम्हारा वध करके मैं वाल्मीकि, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, भगदत्त, शल्य, भूरिश्रवा और शकुनिके तथा अपने पुत्रों, मित्रों, हितैषियों एवं बन्धु-बान्धवोंके ऋणसे उच्छ्रय हो जाऊँगा।'

यह कहकर दुर्योधन चुप हो गया। तब युधिष्ठिरने कहा—'दुर्योधन! यह जानकर खुशी हुई कि तुम अभी युद्धका ही विचार रखते हो। यदि तुम्हारी इच्छा हममेंसे एक-एकके साथ ही लड़नेकी है, तो ऐसा ही करो। कोई भी एक हथियार, जो तुम्हें पसंद हो, लेकर मैदानमें उतरा और एकके ही साथ लड़ो। वाकी लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। इसके सिवा, तुम्हारी एक कामना और पूर्ण करता हूँ, हममेंसे एकको भी मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा ही जायगा और यदि खुद मारे गये तो स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा ही।'

दुर्योधनने कहा—'यदि एकसे ही लड़ना है, तो मैं युद्धके लिये ललकारता हूँ। किसी भी शूरवीरको मेरा सामना करनेके लिये दे दो। तुम्हारे कथनानुसार मैं आयुधोंमें एकमात्र गदाको ही पसंद करता हूँ। तुममेंसे कोई भी एक वीर, जो मुझे जीतनेकी शक्ति रखता हो, गदा लेकर पैदल ही आ जाय और मेरे साथ युद्ध करे। युधिष्ठिर! इस गदासे मैं तुमको, तुम्हारे भाइयोंको, पाञ्चालों और सृञ्जयोंको तथा तुम्हारे अन्य सैनिकोंको भी परास्त कर सकता हूँ। डर तो मुझे इन्द्रसे भी नहीं लगता, फिर तुमसे क्या भय करूँगा?'

युधिष्ठिर बोले—'पाण्डारीनन्दन! उठो तो सही

एक-एकके साथ ही गदायुद्ध करके अपने पुरुषत्वका परिचय दो। आओ, मेरे ही साथ लड़ो। यदि इन्द्र भी तुम्हारी सहायता करें तो भी आज तुम जीवित नहीं रह सकते।'

महाराज! युधिष्ठिरके इस कथनको दुर्योधन नहीं सह सका। वह कंधेपर लोहेकी गदा रखकर बंधे हुए, जलको चोरता हुआ बाहर निकल आया। उस समय सब प्राणियोंने उसे दण्डधारी यमराजके समान ही समझा। उसे पानीसे बाहर आया देख पाण्डव तथा पाञ्चाल बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरेके हाथपर ताली पीटने लगे।

दुर्योधनने इसे अपना उपहास समझा, क्रोधसे उसकी त्योंरियाँ चढ़ गयीं। भौंहोंमें तीन जगह बल पड़ गये और वह मानो सबको भस्म कर डालेगा, इस प्रकार श्रीकृष्णसहित पाण्डवोंकी ओर देखता हुआ बोला—'पाण्डवों! इस उपहासका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम मेरे हाथसे मारे जाकर इन पाञ्चालोंके साथ शीघ्र ही यमलोकमें पहुँचोगे।'

यों कहकर जब वह हाथमें गदा लिये खड़ा हुआ, उस समय पाण्डव उसे कोपमें भरे हुए यमराजके समान मानने लगे। उसने मेघके समान गरजकर अपनी गदा दिखाते हुए सम्पूर्ण पाण्डवोंको युद्धके लिये ललकारा और कहने लगा—'युधिष्ठिर! तुमलोग एक-एक करके मुझसे युद्ध करनेके लिये आते जाओ; क्योंकि एक वीरको एक साथ बहुतोंसे लड़ाना न्यायकी बात नहीं है। अगर सब लोग मेरे साथ लड़ना ही चाहो तो भी मैं तैयार हूँ, परंतु यह काम उचित है या अनुचित? यह तो तुम्हें मालूम ही होगा!'

युधिष्ठिर बोले—'दुर्योधन! जिस समय बहुत-से महारथियोंने मिलकर अकेले अभिमन्युको मार डाला था, उस समय तुम्हें यह न्याय-अन्यायकी बात क्यों नहीं सूझी? यदि तुम्हारा धर्म यही कहता है कि बहुत-से योद्धा मिलकर एकको न मारें, तो उस दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहुत-से महारथियोंने अभिमन्युको क्यों मारा था? सच है, स्वयं संकटमें पड़नेपर प्रायः सभी लोग धर्मका विचार करने लगते हैं। खैर, जाने दो इन बातोंको। कवच पहनो और शिखा बांध लो तथा और जो आवश्यक सामान तुम्हारे पास न हो, वह मुझसे ले लो। इसके सिवा, जैसा कि पहले कह चुका हूँ, तुम्हें एक वरदान और देता हूँ—'तुम पाँचों पाण्डवोंमेंसे जिसके साथ युद्ध करना चाहो, करो, यदि उसको मार डालोगे तो राज्य तुम्हारा ही होगा और यदि खुद मारे गये तो तुम्हारे

लिये स्वर्ग तो है ही। इसके अतिरिक्त भी बताओ, हम तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करें? जीवनकी भिक्षा छोड़कर जो चाहो मांग सकते हो।

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर, दुर्योधनने सोनेका कवच और मुनहरा टोप—ये दो चीजें मांग लीं और उन्हें धारण भी कर लिया। फिर हाथमें गदा लेकर बोला—‘राजन्! तुम्हारे भाइयोंमेंसे कोई भी एक आकर मुझसे गदायुद्ध करे। सहदेव, भीम, नकुल, अर्जुन अथवा सुभ—कोई भी क्यों न हो, मैं उसके साथ युद्ध करूँगा और उसे जीत भी लूँगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि गदायुद्धमें मेरे समान कोई है ही नहीं, गदासे मैं तुम सब लोगोंको मार सकता हूँ। यदि न्यायतः युद्ध हो तो तुममेंसे कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मुझे स्वयं अपने लिये ऐसी गर्वभरी बात नहीं कहनी चाहिये, तथापि कहना पड़ा है। अथवा कहनेकी क्या बात है, मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ सत्य करके दिखा दूँगा। जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो, वह गदा लेकर सामने आ जाय।’



श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको उलाहना, भीमकी प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधनमें वायुद, फिर बलरामजीका आगमन और उनका स्वागत

सञ्जय कहते हैं—महाराज! यों कहकर दुर्योधन जब बारबार गर्जना करने लगा, उस समय भगवान् श्रीकृष्ण कुपित होकर युधिष्ठिरसे बोले—‘राजन्! आपने यह कंसी दुःसाहसपूर्ण बात कह डाली कि ‘तुम हममेंसे एकको ही मारकर कौरवोंके राजा हो जाओ।’ अगर दुर्योधन अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा आपको ही युद्धके लिये चुन ले, तब क्या होगा? मैं आपलोगोंमें इतनी शक्ति नहीं देखता कि गदा-युद्धमें दुर्योधनका मुकाबला कर सकूँ। इसने भीमसेनका यद्य करनेके लिये उनकी लोहेकी मूर्तिके साथ तेरह चर्यौतक गदायुद्धका अभ्यास किया है। दुर्योधनका सामना करनेवाला इस समय भीमसेनके, सिवा दूसरा कोई नहीं है, आपने फिर पहलेहीके समान जूआ खेलना शुरू कर दिया। आपका यह जूआ शकुनिके जूसे कहीं अधिक भयंकर है! माना कि भीमसेन बलवान् और समर्थ हैं, परंतु राजा दुर्योधनने अभ्यास अधिक किया है। एक ओर बलवान् हो और दूसरी ओर युद्धका अभ्यासी तो उनमें अभ्यास करनेवाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज! आपने अपने शत्रुको समान भाग्यपर सा दिया है। अपनेको विपत्तिमें फँसाया और



फटकारा तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोधसे दोनों हाथ हिलाने लगा और मन-ही-मन युद्धका निश्चय करके राजा युधिष्ठिरसे बोला—'तुम सभी पाण्डव अपने हितैवी मित्रोंको साथ लेकर आये हो, तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं। तुम्हारे पास बहुत-से अस्त्र-शस्त्र होंगे और मैं निहत्था हूँ, तुम रथपर बैठोगे और मैं पैदल हूँ; यही नहीं, तुम्हारी संख्या बहुत है और मैं कहाँ अकेला—ऐसी वशामें मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? युधिष्ठिर! तुम अपने पक्षके एक-एक वीरके साथ मुझे बारी-बारीसे लड़ाओ। एकको बहुतोंके साथ युद्ध के लिये मजबूर करना उचित नहीं है। राजन्! मैं तुमसे या भीमसे जग भी नहीं डरता। श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा पाञ्चालोंका भी मुझे भय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा सात्यकिकी भी मैं परवा नहीं करता, इनके अतिरिक्त भी तुम्हारे पास जो सैनिक हैं, उनको भी मैं कुछ नहीं समझता। मैं अकेला ही सबको परास्त कर दूंगा। आज भाइयोंसहित तुम्हारा वध करके मैं बाह्लीक, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, भगदत्त, शल्य, भूरिश्रवा और शकुनिके तथा अपने पुत्रों, मित्रों, हितैवियों एवं बन्धु-बान्धवोंके ऋणसे उन्मत्त हो जाऊँगा।'

यह कहकर दुर्योधन चुप हो गया। तब युधिष्ठिरने कहा—'दुर्योधन! यह जानकर खुशी हुई कि तुम अभी युद्धका ही विचार रखते हो। यदि तुम्हारी इच्छा हममेंसे एक-एकके साथ ही लड़नेकी है, तो ऐसा ही करो। कोई भी एक हथियार, जो तुम्हें पसंद हो, लेकर मैदानमें उतरो और एकके ही साथ लड़ो। बाकी लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। इसके सिवा, तुम्हारी एक कानना और पूर्ण करता हूँ, हममेंसे एकको भी मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा हो जायगा और यदि खुद मारे गये तो स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा ही।'

दुर्योधनने कहा—'यदि एकसे ही लड़ना है, तो मैं युद्धके लिये ललकारता हूँ। किसी भी शूरवीरको मेरा सामना करनेके लिये दे दो। तुम्हारे कथनानुसार मैं आयुधोंमें एकमात्र गदाको ही पसंद करता हूँ। तुममेंसे कोई भी एक वीर, जो मुझे जीतनेकी शक्ति रखता हो, गदा लेकर पैदल ही आ जाय और मेरे साथ युद्ध करे। युधिष्ठिर! इस गदासे मैं तुमको, तुम्हारे भाइयोंको, पाञ्चालों और सृञ्जयोंको तथा तुम्हारे अन्य सैनिकोंको भी परास्त कर सकता हूँ। डर तो मुझे इन्द्रसे भी नहीं लगता, फिर तुमसे क्या भय कहेगा?'

युधिष्ठिर बोले—'गान्धारीनन्दन! उठो तो सही

एक-एकके साथ ही गदायुद्ध करके अपने पुरुषत्वका परिचय दो। आओ, मेरे ही साथ लड़ो। यदि इन्द्र भी तुम्हारी सहायता करें तो भी आज तुम जीवित नहीं रह सकते।

महाराज! युधिष्ठिरके इस कथनको दुर्योधन नहीं सह सका। वह कंधेपर लोहेकी गदा रखकर बंधे हुए जलको चीरता हुआ बाहर निकल आया। उस समय सब प्राणियोंने उसे दण्डधारी यमराजके समान ही समझा। उसे पानीसे बाहर आया देख पाण्डव तथा पाञ्चाल बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरेके हाथपर ताली पीटने लगे।

दुर्योधनने इसे अपना उपहास समझा, क्रोधसे उसकी त्योंरियाँ चढ़ गयीं। भोंहोंमें तीन जगह बल पड़ गये और वह मानो सबको भस्म कर डालेगा, इस प्रकार श्रीकृष्णसहित पाण्डवोंकी ओर देखता हुआ बोला—'पाण्डवो! इस उपहासका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम मेरे हाथसे मारे जाकर इन पाञ्चालोंके साथ शीघ्र ही यमलोकमें पहुँचोगे।'

यों कहकर जब वह हाथमें गदा लिये खड़ा हुआ, उस समय पाण्डव उसे कोपमें भरे हुए यमराजके समान मानने लगे। उसने मेघके समान गरजकर अपनी गदा दिखाते हुए सम्पूर्ण पाण्डवोंको युद्धके लिये ललकारा और कहने लगा—'युधिष्ठिर! तुमलोग एक-एक करके मुझसे युद्ध करनेके लिये आते जाओ; क्योंकि एक वीरको एक साथ बहुतोंसे लड़ाना न्यायकी बात नहीं है। अगर सब लोग मेरे साथ लड़ना ही चाहो तो भी मैं तैयार हूँ, परंतु यह काम उचित है या अनुचित? यह तो तुम्हें मालूम ही होगा!'

युधिष्ठिर बोले—'दुर्योधन! जिस समय बहुत-से महारथियोंने मिलकर अकेले अभिमन्युको मार डाला था, उस समय तुम्हें यह न्याय-अन्यायकी बात क्यों नहीं सूझी? यदि तुम्हारा धर्म यही कहता है कि बहुत-से योद्धा मिलकर एकको न मारें, तो उस दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहुत-से महारथियोंने अभिमन्युको क्यों मारा था? सच है, स्वयं संकटमें पड़नेपर प्रायः सभी लोग धर्मका विचार करने लगते हैं। खैर, जाने दो इन बातोंको। कवच पहनो और शिखा बाँध लो तथा और जो आवश्यक सामान तुम्हारे पास न हो, वह मुझसे ले लो। इसके सिवा, जैसा कि पहले कह चुका हूँ, तुम्हें एक वरदान और देता हूँ—तुम पाँचों पाण्डवोंमेंसे जिसके साथ युद्ध करना चाहो, करो, यदि उसकी मार डालोगे तो राज्य-तुम्हारा ही होगा और यदि खुद मारे गये तो तुम्हारे

लिये स्वर्ग तो है ही। इसके अतिरिक्त भी यथाशक्ति, हम तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करें? जीवनकी भिक्षा छोड़कर जो चाहे माँग सकते हैं।

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर, दुर्योधनने सोनेका कवच और मुनहरा टोप—ये दो चीजें माँग लीं और उन्हें धारण भी कर लिया। फिर हाथमें गदा लेकर बोला—‘राजन्! तुम्हारे भाइयोंमेंसे कोई भी एक आकर मुझसे गदायुद्ध करे। सहदेव, भीम, नकुल, अर्जुन अथवा तुम—कोई भी क्यों न हो, मैं उसके साथ युद्ध करूँगा और उसे जीत भी लूँगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि गदायुद्धमें मेरे समान कोई है ही नहीं, गदासे मैं तुम सब लोगोंकी मार सकता हूँ। यदि ग्यायतः युद्ध हो तो तुममेंसे कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मुझे स्वयं अपने लिये ऐसी गर्वभरी बात नहीं कहनी चाहिये, तथापि कहना पड़ा है। अथवा कहनेकी क्या बात है, मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ सत्य करके दिखा दूँगा। जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो, वह गदा लेकर सामने आ जाय।’



श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको उलाहना, भीमकी प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधनमें वाग्दुद, फिर बलरामजीका आगमन और उनका स्वागत

सञ्जय कहते हैं—महाराज! यों कहकर दुर्योधन जब बारबार गर्जना करने लगा, उस समय भगवान् श्रीकृष्ण कुपित होकर युधिष्ठिरसे बोले—‘राजन्! आपने यह कंसी दुःसाहसपूर्ण बात कह डाली कि ‘तुम हममेंसे एकको ही मारकर कौरवोंके राजा हो जाओ।’ अगर दुर्योधन अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा आपको ही युद्धके लिये चुन ले, तब क्या होगा? मैं आपलोगोंमें इतनी शक्ति नहीं देखता कि गदा-युद्धमें दुर्योधनका मुकाबला कर सकें। इसने भीमसेनका यथ करनेके लिये उनकी लोहेकी मूर्तिके साथ तेरह धर्षोत्क गदायुद्धका अभ्यास किया है। दुर्योधनका सामना करनेवाला इस समय भीमसेनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, आपने फिर पहलेहीके समान जूआ खेलना शुरू कर दिया। आपका यह जूआ शकुनिके जुएसे कहीं अधिक भयंकर है। माना कि भीमसेन बलवान् और समर्थ हैं, परंतु राजा दुर्योधनने अभ्यास अधिक किया है। एक ओर बलवान् हो और दूसरी ओर युद्धका अभ्यासी तो उनमें अभ्यास करनेवाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज! आपने अपने शत्रुको समान माँगपर ला दिया है। अपनेको विपत्तिमें फँसाया और



हमलोगोंकी कठिनाई बढ़ा दी। भला, कौन ऐसा होगा, जो सब शत्रुओंको जीत लेनेके बाद जब एक ही बाकी रह जाय और वह भी संकटमें पड़ा हो तो अपने हाथमें आया हुआ राज्य दाँवपर लगाकर हार जाय, एकके साथ युद्ध करनेकी शर्त लगाकर लड़ना पसंद करे। यदि हम न्यायसे युद्ध करें तो भीमसेनकी विजयमें भी संदेह है; क्योंकि दुर्योधनका अभ्यास इनसे अधिक है। तो भी आपने कह यह दिया कि 'हममेंसे एकको भी मार डालनेपर तुम राजा हो जाओगे।'

यह सुनकर भीमसेनने कहा—'मधुसूदन! आप चिन्ता न कीजिये। आज युद्धमें दुर्योधनको मैं अवश्य मार डालूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे तो निश्चय ही धर्मराजकी विजय दिखायी देती है। मेरी गदा दुर्योधनकी गदासे डेढ़-गुनी भारी है। मैं इस गदासे दुर्योधनके साथ भिड़नेका हौसला रखता हूँ। आप सब लोग तमाशा देखिये, दुर्योधनकी तो बिसात ही क्या है, मैं देवताओंसहित तीनों लोकोंके साथ युद्ध कर सकता हूँ।'

सञ्जय कहते हैं—'भीमसेनने जब ऐसी बात कही तो भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले—'महाबाहो! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राजा युधिष्ठिरने तुम्हारे ही भरोसे अपने शत्रुओंको मारकर उज्ज्वल राज्य-लक्ष्मी प्राप्त की है। धृतराष्ट्रके सब पुत्र तुम्हारे ही हाथसे मारे गये हैं। कितने ही राजे, राजकुमार और हाथी तुम्हारे द्वारा मौतके घाट उतारे जा चुके हैं। कलिङ्ग, मगध, प्राच्य, गान्धार और कुशदेशके राजाओंका भी तुमने संहार किया है। इसी प्रकार आज दुर्योधनको भी मारकर तुम समुद्रसहित यह सारी पृथ्वी धर्मराजके हवाले कर दो। तुमसे भिड़नेपर पापी दुर्योधन अवश्य मारा जायगा। देखो, तुम इसकी दोनों जाँचें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना।'

तदनन्तर, सात्यकिने पाण्डुनन्दन भीमकी प्रशंसा की। पाण्डवों तथा पाञ्चालोंने भी उनके प्रति सम्मानका भाव प्रदर्शित किया। इसके बाद भीमने युधिष्ठिरसे कहा—'भैया! मैं रणमें दुर्योधनके साथ लड़ना चाहता हूँ, यह पापी मुझे कदापि नहीं परास्त कर सकता। मेरे हृदयमें इसके प्रति बहुत दिनोंसे क्रोध-जमा हो रहा है, उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा और गदासे इसका विनाश करके आपके हृदयका काँटा निकाल दूंगा, अब आप प्रसन्न होइये। अब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रको मेरे हाथसे मारा गया सुनकर शकुनिकी सलाहसे किये हुए अपने अशुभ कर्मोंको याद करेंगे।'

यों कहकर भीमने गदा उठायी और इन्द्रने जैसे वृद्धासुर-को बुलाया था, वैसे ही दुर्योधनको युद्धके लिये ललकारा। दुर्योधन उनकी ललकार न सह सका, वह तुरन्त ही भीमका



सामना करनेके लिये उपस्थित हो गया। उस समय दुर्योधनके मनमें न घबराहट थी न भय, न ग्लानि थी न व्यथा; वह सिंहके समान निर्भय खड़ा था। उसे देखकर भीमसेनने कहा—'दुरात्मन्! तूने तथा राजा धृतराष्ट्रने हमलोगोंपर जो-जो अत्याचार किये थे और वारणावतमें जो तुम्हारे द्वारा हमारा अहित किया गया, उन सबको याद कर ले। भरी सभामें तूने रजस्वला द्रौपदीको क्लेश पहुँचाया, शकुनिकी सलाह लेकर राजा युधिष्ठिरको कपटपूर्वक जूएमें हराया तथा निरपराध पाण्डवोंपर जितने-जितने अत्याचार तूने किये, उन सबका महान् फल आज अपनी आँखों देख ले। तेरे ही कारण हमलोगोंके पितामह भीष्मजी आज शर-शय्यापर पड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य तथा वीरका आदि खण्डा शकुनि—ये सब मारे गये हैं। तेरे भाई, पुत्र, योद्धा तथा कितने ही वीर क्षत्रिय मौतके घाट उतर चुके; अब इस वंशका नाश करनेवाला सिर्फ तू ही एक बाकी रह गया है। आज इस गदासे तुझे भी मार डालूंगा—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज तेरा सारा धर्मंड चूर्ण कर दूंगा और राज्यके लिये बड़ी हुई लालसा भी मिटा दूंगा।'

दुर्योधन बोला—'वृकोदर! बहुत बातें बनानेसे क्या होगा, मेरे साथ लड़ तो सही, आज युद्धका तेरा सारा हौसला पूरा कर दूंगा। पापी! देखता नहीं; मैं हिमालयके शिखरके समान भारी गदा लेकर युद्धके लिये खड़ा हूँ।'

हैं। मेरे हाथमें गदा होनेपर कौन शत्रु मुझे जीतनेका साहस कर सकता है। न्यायतः युद्ध हो तो इन्द्र भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। कुन्तीनन्दन ! ध्येयं गर्जना न कर; तुममें जितना बल हो उसे आज युद्धमें दिला।

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! भीमसेन और दुर्योधनमें महामयंकर संग्राम छिड़नेहीवाला था कि अपने दोनों शिष्योंके युद्धका समाचार पाकर बलरामजी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखकर धीरुष्ण तथा पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई।



उन्होंने निकट जाकर उनका चरण-स्पर्श किया और विधिवत् उनकी पूजा की। इसके बाद बलरामजी धीरुष्ण, पाण्डवों तथा गदाधारो दुर्योधनको देखकर बहने लगे—‘माधव ! मुझे यात्रामें निकले आज ययातीस दिन हो गये। पुष्य-नक्षत्रमें चला था और श्रवण नक्षत्रमें वापस आया हूँ। इस समय मैं अपने दोनों शिष्योंका गदायुद्ध देखना चाहता हूँ—इसीलिये इधर आया हूँ।

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने बलरामजीको गलेमें लगाकर उनकी कुराल पूछी, धीरुष्ण और अर्जुन भी प्रणाम करके उनसे गले मिले। नकुल-सहदेव तथा द्रौपदीके पुत्रोंने भी उन्हें प्रणाम किया। फिर भीमसेन और दुर्योधनने गदा ऊँची करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। इस प्रकार सबसे सम्मानित होकर बलरामजीने सञ्जय-पाण्डवोंको गलेमें लगाया तथा सब राजाओंसे कुराल-सामाचार पूछा।

इसके बाद उन्होंने धीरुष्ण और सात्यकिको छानोमें लगाकर उनके मस्तक स्पर्शे। फिर उन दोनोंने भी बड़े प्रेमसे उनका पूजन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिरने बलदेवजीसे कहा—‘भैया बलराम ! अब तुम इन दोनों माइयोंका महान् युद्ध देखो।’ उनके ऐसा बहनेपर बलरामजी महाराष्ट्रियोंसे सम्मानित एवं प्रसन्न होकर राजाओंके मध्यमें जा बैठे।



फिर तो भीम और दुर्योधनमें घेरका अन्त करनेवाला रोमाञ्चकारी संग्राम होने लगा।

वलरामजीकी तीर्थयात्रा तथा प्रभास-क्षेत्रका प्रभाव

जनमेजयने कहा—मुने! जब महाभारत-युद्ध आरम्भ होनेके पहले ही बलदेवजी भगवान् श्रीकृष्णकी सम्मति लेकर अन्य द्रुपदवंशियोंके साथ तीर्थयात्राके लिये चले गये और जाते-जाते यह कह गये कि 'मैं न तो दुर्योधनकी सहायता करूँगा, न पाण्डवोंकी;' तब फिर उस समय वहाँ उनका शुभागमन कैसे हुआ? यह समाचार आप मुझे विस्तारके साथ सुनाइये?

वंशम्पायनजी बोले—राजन्! जिन दिनों पाण्डव उपप्लव्य नामक स्थानमें छावनी डालकर ठहरे हुए थे, उन्हीं दिनोंकी बात है, पाण्डवोंने सब प्राणियोंके हितके लिये भगवान् श्रीकृष्णको धृतराष्ट्रके पास भेजा। उन्हें भेजनेका उद्देश्य यह था कि कौरव-पाण्डवोंमें शान्ति बनी रहे—कलह न हो। भगवान् हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्रसे मिले और उनसे सबके लिये हितकर एवं यथार्थ बातें कहों। किन्तु उन्होंने भगवान्का कहना नहीं माना। जब वहाँ संघि करानेमें सफल न हो सके तो भगवान् उपप्लव्यमें ही लौट आये और पाण्डवोंसे बोले—'कौरव अब कालके वशमें ही रहे हैं, इसलिये मेरा कहना नहीं मानते। पाण्डवो! अब तुमलोग मेरे साथ पुण्य नक्षत्रमें युद्धके लिये निकल पड़ो।' इसके बाद जब सेनाका बँटवारा होने लगा तो बलदेवजीने श्रीकृष्णसे कहा—'मधुमूदन! तुम कौरवोंको भी सहायता करना।' परंतु श्रीकृष्णने उनका यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया; इससे वे रुठ गये और पुण्य नक्षत्रमें वहाँसे तीर्थयात्राके लिये निकल पड़े। रास्तेमें उन्होंने सेवकोंको आज्ञा दी कि तुमलोग द्वारका जाकर तीर्थयात्रामें उपयोगी सभी आवश्यक सामान लाओ। साथ ही अग्निहोत्रकी अग्नि और यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणोंको भी आदरपूर्वक ले आना। सोना, चाँदी, गी, वस्त्र, घोड़े, हाथी, रथ, खच्चर और ऋत भी लाने चाहिये।

इस प्रकार आदेश देकर वे सरस्वती नदीके किनारे-किनारे उसके प्रवाहकी ओर तीर्थयात्राके लिये चल पड़े; उनके साथ ऋत्विज, सुहृद, श्रेष्ठ ब्राह्मण, रथ, हाथी, घोड़े, सेवक, बैल, खच्चर और ऋत भी थे। उन्होंने देश-देशमें यज्ञे-माँदे, रोगी, बालक और वृद्धोंका सत्कार करनेके लिये तरह-तरहकी देने योग्य वस्तुएँ तैयार करा रक्खी थीं। भूखोंको भोजन करानेके लिये सर्वत्र अन्नका प्रवण्ड कराया गया था। जिस किसी देशमें जो कोई भी ब्राह्मण जब भोजनकी इच्छा प्रकट करता था, उसको उसी स्थानपर तत्काल

भोजन दिया जाता था। मित्र-मित्र तीर्थोंमें बलदेवजीकी आज्ञासे उनके सेवक खाने-पीनेके पदार्थोंके ढेर लगा रखते थे। ब्राह्मणोंके सम्मानार्थ ब्रह्ममूत्य वस्त्र, पलंग और बिछौने तैयार रहते थे। इस यात्रामें सब लोग आरामसे चलते और विश्राम करते थे। यात्रा करनेवालोंकी यदि इच्छा हो तो उन्हें सवारियाँ भी मिलती थीं। प्यासेको पानी पिलाया जाता और भूखेको स्वादिष्ट अन्न दिया जाता था।

उन यात्रियोंका रास्ता बड़े सुखसे तँ होता था। सबको स्वर्गीय आनन्द मिलता था। सभी सदा ही प्रसन्न रहते थे। साथमें खरीदने-बेचनेकी वस्तुओंका बाजार भी चलता था। महात्मा बलदेवजीने अपने मनकी वशमें रखकर पुण्य-तीर्थोंमें ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दान किया, यज्ञ करके उन्हें दक्षिणाएँ दीं। हजारों दूध देनेवाली गाँएँ दान कीं। उन गाँवोंके साँगमें सोना मड़ा था और उन्हें सुन्दर वस्त्र ओढ़ाये गये थे। मित्र-मित्र देशोंके घोड़े दान किये गये। तरह-तरहकी सवारियाँ, सेवक, रत्न, मोती, मणि, मूंगा, सोना, चाँदी तथा लोहे और ताम्रके बर्तन भी ब्राह्मणोंको दिये गये। इस प्रकार-सरस्वतीके तटवर्ती तीर्थोंमें बहुत-सा दान करके बलरामजी क्रमशः कुरुक्षेत्रमें आ पहुँचे।

जनमेजयने कहा—ब्रह्मन्! अब आप मुझे सरस्वतीके तटवर्ती तीर्थोंके गुण-प्रभाव और उत्पत्तिकी कथा सुनाइये। उन तीर्थोंमें जानेका फल क्या है? और यात्राकी सिद्धि कैसे होती है? तथा जिस क्रमसे बलरामजीने यात्रा की थी, वह क्रम भी बताइये, मुझे यह सब सुननेके लिये बड़ा कीर्तुहल ही रहा है।

वंशम्पायनजी बोले—राजन्! सरस्वतीतटके तीर्थोंका विस्तार, उनका प्रभाव तथा उनकी उत्पत्तिकी पवित्र कथा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। यादववन्दन बलदेवजी ब्राह्मणों तथा ऋत्विजोंके साथ सबसे पहले प्रभासक्षेत्रमें गये, जहाँ राजयक्ष्मासे कष्ट पाते हुए चन्द्रमाँकी शापसे छुटकारा मिला तथा अपना खोया हुआ तेज भी प्राप्त हुआ, जिससे वे सारे जगत्को प्रकाशित करते हैं। चन्द्रमाँकी प्रभासित करनेके कारण ही वह प्रधान तीर्थ पृथ्वीपर 'प्रभास' नामसे विख्यात हुआ।

जनमेजयने पूछा—भूनिवर! भगवान् सोमको यक्ष्मा कैसे हो गया? और उन्होंने उस तीर्थमें किस तरह स्नान किया तथा उसमें डुबकी लगानेसे वे रोगमुक्त हो पुष्ट किस

प्रकार हुए ? ये सारी बातें आप मुझसे विस्तारके साथ बताइये ?

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! इसप्रजापतिकी संतानोंमें अधिकांश कन्याएँ हुई थीं, उनमेंसे सत्ताईस कन्याओंका क्याह उन्हींने चन्द्रमाके साथ कर दिया । उन सबकी 'नक्षत्र' संज्ञा थी । चन्द्रमाके साथ जो नक्षत्रोंका योग होता है, उसकी गणनाके लिये ये सत्ताईस रूपोंमें प्रकट हुई थीं । वे सब-की-सब अनुपम सुन्दरी थीं । किंतु उनमें भी रोहिणीका सौन्दर्य सबसे बढ़कर था; इसलिये चन्द्रमाका अनुराग रोहिणीमें ही अधिक हुआ । वही उनकी हृदय-बल्लभा हुई । वे सदा उसके ही सम्पर्कमें रहने लगे । जनमेजय ! पूर्वकालमें चन्द्रमा रोहिणीनक्षत्रके संघर्षमें अधिक कालतक रहा करते थे; इसलिये नक्षत्र नामवाली दूसरी स्त्रियोंको बड़ी ईर्ष्या हुई, वे कुपित होकर अपने पिता प्रजापतिके पास चली गयीं और बोलीं—'प्रजाताप ! सोम सब रोहिणीके ही पास रहते हैं, हमलोगोंपर उनका स्नेह नहीं है । अतः हमलोग अब आपके ही पास रहेंगी और नियमित आहार करके तपस्यामें लग जायेंगी ।'

उनकी बातें सुनकर बसने सोमको बुलाकर कहा—'तुम अपनी सब स्त्रियोंमें समताका भाव रखो, सबके साथ एक-सा बर्ताव करो । ऐसा करनेसे ही तुम पापसे बच सकोगे ।'

तदनन्तर, दक्षने अपनी कन्याओंसे कहा—'तुम सब सोम चन्द्रमाके पास जाओ, अब वे मेरी आत्माके अनुसार तुम सबके साथ समान भाव रखेंगे ।' पिताके विदा करनेपर वे पुनः पतिके घरमें चली गयीं । किंतु सोमके बर्तावमें कोई अन्तर नहीं पड़ा । उनका रोहिणीके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता गया और वे सदा उसीके पास रहने लगे । तब सोम कन्याएँ पुनः एक साथ होकर पिताके पास गयीं और कहने लगीं—'पिताजी ! सोमने आपकी आज्ञा नहीं मानी, अब तो हम आपकी ही सेवामें रहेंगी ।' यह सुनकर दक्षने फिर सोमको बुलवाया और कहा—'तुम सब स्त्रियोंके साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो मैं शाप दे दूंगा ।' परंतु चन्द्रमाने उनकी बातका अनादर करके रोहिणीके ही साथ निवास किया ।

जब दक्षकी पुनः इसका समाचार मिला तो उन्होंने क्रोधमें भरकर सोमके लिये यक्ष्माकी सृष्टि की, यक्ष्मा चन्द्रमाके शरीरमें घुस गया । क्षयरोगसे पीड़ित हो जानेके कारण चन्द्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे । उन्होंने उससे छूटनेका पत्न भी किया, नाना प्रकारके यज्ञ आदि किये, किंतु दक्षके शापसे छूटकरा न मिला, वे प्रतिदिन क्षीण हो होते गये । जब चन्द्रमाकी प्रभा नष्ट हो गयी, तो अन्न आदि

ओषधियोंका पंदा होना भी बंद हो गया । जो पंदा भी होनी, उनमें न कोई स्वाद होता, न रस । उनकी शक्ति भी नष्ट हो जाती । इस प्रकार अन्न आदिके न होनेसे सब प्राणियोंका नाश होने लगा । सारी प्रजा दुर्बल हो गयी ।

तब देवताओंने चन्द्रमाके पास आकर कहा—'ग्रह आपका रूप कंता हो गया ? इसमें प्रकाश क्यों नहीं होता ? हमलोगोंसे सारा कारण बताइये, आपसे पूरा हाल सुनकर फिर हम इसके लिये कोई उपाय करेंगे ।'

उनके इस प्रकार पूछनेपर चन्द्रमाने उन्हें अपनेकी शाप मिलनेका कारण बताया और उस शापके रूपमें यक्ष्माकी बीमारी होनेका हाल भी कह सुनाया । देवता लोग उनकी बात सुनकर दक्षके पास गये और बोले—'भगवन् ! आप चन्द्रमापर प्रसन्न होकर शाप निवृत्त कीजिये । उनका क्षय होनेसे प्रजाका भी क्षय हो रहा है । तुण, सता, बेतें, ओषधियाँ तथा नाना प्रकारके योज—ये सब नष्ट हो रहे हैं । इनके न रहनेसे हमारा भी नाश हो हो जायगा । फिर हमारे बिना संसार कंते रह सकता है ? इस बातपर ध्यान देकर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिये ।'

देवताओंके ऐसा कहनेपर प्रजापति बोले—'मेरी बात पलटी नहीं जा सकती, एक शतपर उसका प्रभाव कम हो सकता है, यदि चन्द्रमा अपनी सब स्त्रियोंके साथ समान बर्ताव करें तो सरस्वती नदीके उत्तम तीर्थमें स्नान करनेसे ये पुनः पुष्ट हो जायेंगे । फिर ये पंद्रह दिनोंतक बराबर क्षीण होंगे और पंद्रह दिनोंतक बढ़ते रहेंगे । मेरी यह बात सच्ची मानो । परिचम-समुद्रके तटपर, जहाँ सरस्वती नदी सागरमें मिलती है, जाकर ये भगवान् शंकरकी आराधना करें, इससे इन्हें इनकी लोधी हुई कान्ति मिल जायगी ।'

इस प्रकार प्रजापतिकी आज्ञा होनेसे सोम सरस्वतीके प्रथम तीर्थ प्रभासक्षेत्रमें गये । वहाँ अमावस्याके उन्हींने स्नान किया, इससे उनकी प्रभा बढ़ गयी, फिर वे समस्त संसारको प्रकाशित करने लगे । तब देवता लोग चन्द्रमाको साथ लेकर प्रजापतिके पास गये । उन्होंने देवताओंको तो विदा कर दिया और चन्द्रमासे कहा—'बेटा ! आजने अपनी पतिबंधिका तथा ब्राह्मणका क्रोध अपमान न करना । जाओ, सावधानीके साथ मेरी आज्ञाका पालन करते रहना ।'

यह कहकर प्रजापतिने उन्हें जानेकी आज्ञा दे दी । चन्द्रमा अपने लोकमें गये और सम्पूर्ण प्रजा दुर्बल प्रसन्न रहने लगी । जनमेजय ! चन्द्रमाकी जिस प्रकार रूप निवृत्त था वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया, अब ही सब तीर्थोंमें प्रधान प्रभासतीर्थका

तीर्थमें स्नान करनेके पश्चात् बलरामजी चमसौद्धेद नामक तीर्थमें गये, वहाँ विधिवत् स्नान करके उन्होंने नाना प्रकारके दान किये और एक रात वहाँ निवास भी किया।

दूसरे दिन उदपान तीर्थमें गये, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य-का कल्याण हो जाता है। इस तीर्थमें सरस्वती नदीका जल जमीनके भीतर छिपा रहता है।

उदपान तीर्थकी उत्पत्ति—त्रित मुनिका उपाख्यान

वंशम्पायनजी कहते हैं—महाराज ! उदपान तीर्थमें पहुँचकर बलदेवजीने आचमन किया और वहाँके ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें बहुत-सा द्रव्य दानमें दिया। वहाँ जानेसे उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई। उस तीर्थमें पहले त्रित मुनि रहा करते थे, वे बड़े तपस्वी और धर्मपरायण थे। उन्होंने वहाँ कुएँमें रहकर ही सोमपान किया था। उनके दो भाई थे, जो उन्हें कुएँमें छोड़कर घर चले गये थे, इससे उन्होंने दोनों भाइयोंको शाप दे दिया था।

राजा जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! वह उदपान (कुआँ) तीर्थ कैसे हुआ ? तथा वे महातपस्वी मुनि उसमें गिरे क्यों ? दोनों भाइयोंने उनका परित्याग क्यों किया ? वे उन्हें कुएँमें छोड़कर क्यों चले गये ? वहाँ रहकर उन्होंने यज्ञ कैसे किया और सोमपान किस तरह किया ? यह सब कथा मुझे सुनाइये।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! पहले युगकी बात है, तीन सहोदर भाई थे, जो मुनि-वृत्तिसे रहा करते थे, उनके नाम थे—एकत, द्वित और त्रित। वे सब वेदवेत्ता थे और तपस्यासे ब्रह्मलोकमें स्थान पा चुके थे। उनके धर्मात्मा पिताका नाम गीतम था। गीतमजी अपने पुत्रोंके तप, नियम और इन्द्रियनिग्रहसे उनपर बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ कालके बाद जब गीतम परलोकवासी हो गये तो उनके घजमान लोग उनके पुत्रोंका ही आदर-सत्कार करने लगे। उनमें भी त्रित मुनि अपने शुभ कर्म और वेदाध्ययनके द्वारा पिताके समान ही सम्मानित हुए।

एक दिन की बात है, दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धनके लिये चिन्ता करने लगे। उन्होंने सोचा—‘हमलोग त्रितको साथ लेकर यजमानोंका यज्ञ करावें और दक्षिणाके रूपमें बहुत-से पशु प्राप्त करें। फिर यज्ञ करके प्रसन्नतापूर्वक सोमपान करेंगे।’ ऐसा विचार करके वे तीनों भाई यजमानोंके पास गये और उनसे विधिपूर्वक यज्ञ करवाकर उन्होंने बहुतेरे पशु प्राप्त किये। उन सबको लेकर वे पूर्व दिशाकी ओर चले। त्रित मुनि तो हृष्यमें भरे हुए आगे-आगे चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओंको हाँकते जाते थे।

पशुओंका वह महान् संग्रह देखकर एकत और द्वितके मनमें यह चिन्ता समायी कि ‘कौन-सा उपाय हो, जिससे ये गौएँ त्रितको न मिलकर सब हमारे ही पास रह जायँ।’ फिर वे परस्पर कहने लगे—‘त्रित तो विद्वान् है, उसे और भी बहुतेरी मिल जायँगी। इन गौओंको तो हम दोनों ही मिलकर अन्यत्र हाँक ले चलें और त्रितको अलग कर दें। उसकी जहाँ इच्छा हो, चला जाय।’

इस प्रकार सलाह करते हुए वे मार्ग तं कर रहे थे। रात्रिका समय था, रास्तेमें एक भेड़िया खड़ा था। पास ही सरस्वतीके तटपर एक बहुत बड़ा कुआँ था। त्रित मुनिकी दृष्टि उस भेड़ियेपर पड़ी, उसे देखते ही वे भयभीत होकर भागे और दौड़ते-दौड़ते उसी कुएँमें जा पड़े। भीतरसे उन्होंने आर्तनाद किया, उनके दोनों भाइयोंने उसे सुना भी, परंतु उन्हें निकालनेकी चेष्टा नहीं की। भेड़ियेका भय तो था ही, लोभने भी उन्हें अपने चंगुलमें फँसा रक्खा था, इसलिये त्रितको कुएँमें ही छोड़कर वे चलते बने। उस कुएँमें पानीका नाम नहीं था, सिर्फ वालू भरा हुआ था, सब ओर घास और लताएँ बढ़ गयी थीं, जिनसे उसका उपरी भाग ढका रहता था।

अपनेकी कुएँमें गिरा देख त्रितको मृत्युका भय हुआ। उनकी सोमपानकी इच्छा अभी निवृत्त नहीं हुई थी। बुद्धिमान् तो वे थे ही, सोचने लगे, ‘इसमें रहकर मैं सोमपान कैसे कर सकता हूँ?’ इतनेमें कुएँके भीतर फँसी हुई एक लतापर उनकी दृष्टि पड़ी, फिर उन्होंने वालूभरे कुएँमें जलकी भावना करके संकल्पद्वारा अग्निकी स्थापना की। फिर अपनेमें होतृत्वकी और उस लतामें सोमकी भावना करके मन-ही-मन ऋग्, यजुः और सामका चिन्तन किया। इसके बाद कंकड़ोंमें शिलाकी भावना करते हुए उसपर पीसकर लतासे सोमरस निकाला। फिर पानीमें धोका संकल्प करके उन्होंने देवताओंके भाग नियत किये और सोमरस लंघार करके वेदमन्त्रोंका तुमुलनाद किया। महात्मा त्रितकी वह वेदध्वनि स्वर्गतक गूँज उठी।

देवपुरोहित बृहस्पतिजीको भी वह सुनायी पड़ी। उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओंसे कहा—‘त्रित मुनिका

यज्ञ हो रहा है, यहाँ हमलोगोंको घलना चाहिये । ये बड़े तपस्वी हैं, यदि नहीं चलते तो शोधमें आकर दूसरे देवताओंकी स्मृति कर डालेंगे ।' बृहस्पतिजीकी बात सुनकर सब देवता एक साथ हो जहाँ त्रित मुनिका यज्ञ हो रहा था, यहाँ गये । यहाँ पहुँचकर उन्होंने उस कूपको देखा और यज्ञमें दीक्षित हुए त्रित मुनिका भी दर्शन किया । ये बड़े तेजस्वी दिखायी दे रहे थे । देवताओंने कहा—'हम अपना भाग लेने आये हैं ।' त्रितने कहा—'देवताओं ! देतो, मैं किस दगामें पड़ा हुआ हूँ ।' यह कहकर उन्होंने मन्त्र पढ़ते हुए विधिपूर्वक देवताओंको उनके भाग अर्पण किये !

इससे देवतालोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनिसे बोले—'आप इच्छानुसार घर माँगिये ।' मुनिने कहा—'इस कुएँसे मेरी रक्षा करो तथा जो मन्व्य इसमें आचमन करे, उसे सोमपान करनेवालेकी गति प्राप्त हो ।' राजन् ! त्रित मुनिके इतना कहते ही कुएँसे लग्नमालाओंसे सुशोभित सारस्वती नदी सहारा उठी, उसके जलके साथ ही उठकर ये

कुएँसे बाहर निकल आये । देवताओंने 'तयाम्नु' कहकर उनके माँग हुए घरदानका अनुमोदन किया; तत्परन्तान् वे अपने-अपने धामको चले गये ।

त्रित मुनि भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आये । वहाँ अपने दोनों भाइयोंको देखकर उन्हें बड़ा शोध हुआ; इसलिये उन्होंने बहुत बटोर यज्ञ मुनाकर उन शोधोंको शाप दिया—'सुमत्तोग पशुके सानचमें पड़कर जो मुझे कुएँमेंही छोड़कर भाग आये हो, यह महान् पाप किया है, इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िये हो जाओ और अपनी बड़ी-बड़ी डाँड़ें लिये इधर-उधर भटकते फिरो । तुमसे गवय, रोछ और बानर आदि पशुओंको उत्पत्ति होगी ।' उनके ऐसा कहते ही वे दोनों भाई भेड़ियेकी शक्तमें दिखायी देने लगे ।

बलदेवजीने नदीके भीतर स्थित उदपान तीर्थका दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंसा की, फिर उसके जन्मे आचमन करके वहाँके ब्राह्मणोंकी पूजा की और उन्हें नाना प्रकारके दान दिये । तत्परन्तान् वे विनशन तीर्थमें गये ।

विनशन आदि तीर्थोंका वर्णन, नैमिषीय तथा सप्तसारस्वत तीर्थोंका विशेष वृत्तान्त

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! वहाँ सारस्वती नदी जमीनके भीतर अदृश्य रूपमें घटती है, इसलिये ऋषिगण उसे 'विनशन तीर्थ' कहते हैं । बलदेवजी यहाँ आचमन करके आगे बढ़े और सारस्वतीके उत्तम तटपर मुभूमिक नामवाले तीर्थमें जा पहुँचे । वहाँ उन्हें बहुतसे गन्धर्व और अप्सराएँ दिखायी पड़ीं । उस पवित्र तीर्थमें स्नान तथा दान करके वे गन्धर्वतीर्थमें गये, जहाँ तपस्यामें लगे हुए विश्वाम्नु आदि प्रधान-प्रधान गन्धर्व गाना, बजाना तथा नृत्य कर रहे थे । उस तीर्थमें स्नान करके बलदेवजीने ब्राह्मणोंकी सोना-छादी आदि विविध वस्तुओंका दान किया । फिर उन्हें भोजन कराकर घट्टमूल्य वस्तुएँ दे उनकी कामनाएँ पूर्ण कीं ।

तत्परन्तान् वे गर्ग्योत नामक तीर्थमें गये । जहाँ बृद्ध गर्गने तपस्या करके अपने अन्तःकरणको पवित्र किया था तथा कालका ज्ञान, कालकी गति, नक्षत्रों और ग्रहोंकी गतिका उलट-फेर, भयंकर उत्पत्त और शुभ शत्रुन आदि ज्योतिःशास्त्रके विषयोंकी पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी । उन्होंने नामपर यह तीर्थ 'गर्ग्योत' कहा जाने लगा । वहाँपर बलदेवजीने ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक धन दान किया और नाना प्रकारके पदार्थ भोजन कराकर शङ्खतीर्थमें पदार्पण किया । वहाँ उन्होंने मेरुगिरिके समान एक बहुत

ऊँचा शङ्ख देखा; जो अनेकों ऋषियोंने सुसंविष्ट था । वहाँ सारस्वतीके तटपर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, जहाँ हजारोंकी संख्यामें यक्ष, विद्याधर, राक्षस, पिशाच तथा गिद्ध रहते थे । वे सब अन्न त्याग करके घत और नियमोंका पालन करने हुए समय-समयपर उस वृक्षका फल ही लाया करते थे । वहाँ बलदेवजीने ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें बर्तन भीर वस्त्र दान किये । इसके बाद वे परम पवित्र द्रुतवनमें आये । उस वनमें रहनेवाले ऋषि-मुनियोंका दर्शन करके उन्होंने यहाँकि तीर्थ-जलमें डूबकी लगायी और ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें विविध प्रकारके भोग्यपदार्थ दान किये । फिर यहाँसे चलकर वे सारस्वतीके दक्षिणभागमें घोड़ी ही दूरपर स्थित नागधन्वा तीर्थमें गये, जहाँ नित्य चौदह हजार ऋषि मौजूद रहते हैं । उसी स्थानपर देवताओंने वायुषिकी सर्पोंका राजा बनाकर अभिषेक किया था । वहाँ किमीको भी सर्पोंके डमनेका भय नहीं रहता । बलदेवजीने वहाँ भी ब्राह्मणोंकी डेर-के-डेर रत्न दान किये । फिर, वे पूर्व दिशाकी ओर चल दिये, जहाँ पद्म-वग्णपर सातों तीर्थ प्रकट हुए हैं । उन सब तीर्थोंमें उन्होंने मोते लगाये और ऋषियोंके बनाये अनुगार दत्त-नियमादिका पालन किया । फिर सब प्रकारके दान करके वे अपने अमोघ्य भागोंकी ओर चम दिये । जाने-

जाते वहाँ पहुँचे, जहाँ पश्चिमकी ओर बहनेवाली सरस्वती नदी नैमिषारण्यवासी मुनियोंके दर्शनकी इच्छासे पुनः पूर्व दिशाकी ओर लौट पड़ी है। उसे पीछेकी ओर लौटी देख बलदेवजीको बड़ा आश्चर्य हुआ।

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! सरस्वती नदी पूर्वकी ओर क्यों लौटी ? बलभद्रजीके आश्चर्यका भी कोई कारण होना चाहिये। उस नदीके इस प्रकार पीछे लौटनेमें क्या हेतु है ?

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! सत्ययुगकी बात है, नैमिषारण्यके तपस्वी ऋषियोंने मिलकर बारह वर्षोंमें समाप्त होनेवाला एक महान् सत्र आरम्भ किया, उसमें सम्मिलित होनेके लिये बहुत-से ऋषि पधारे थे। जब सत्र समाप्त हुआ, उस समय भी तीर्थके कारण वहाँ बहुत-से ऋषि-महर्षियोंका शुभागमन हुआ। उनकी संख्या इतनी अधिक हो गयी कि सरस्वतीके दक्षिण किनारेके तीर्थ नगरोंके समान मनुष्योंसे भर गये। नदीके तीरपर नैमिषारण्यसे लेकर समन्तपञ्चक-तक ऋषि-मुनि ठहरे हुए थे। वे वहाँ यज्ञ-होमादि करने लगे, उनके द्वारा उच्चारित वेद-मन्त्रोंके गम्भीर घोषसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं। महाराज ! उन ऋषियोंमें सुप्रसिद्ध वालखिल्य, अश्वकुट्ट, दन्तोलखली और संप्रख्यान भी थे। कोई हवा पीकर रहता था कोई पानी। बहुतेरे तपस्वी पत्ते चबाकर रहते थे। सब लोग मिट्टीकी वेदीपर सोते और नाना प्रकारके नियमोंमें लगे रहते थे। वे सब ऋषि सरस्वतीके निकट आकर उसकी शोभा बढ़ाने लगे, किंतु वहाँ तीर्थ-भूमिमें उन्हें रहनेकी जगह नहीं दिखायी दी। इससे वे निराश एवं चिन्तित हो गये। उनकी यह अवस्था देख सरस्वतीने दयावश उन्हें दर्शन दिया। वह अनेकों कुञ्जोंका निर्माण करती हुई पीछे लौट पड़ी और ऋषियोंके लिये तीर्थ-भूमि बनाकर फिर पश्चिमकी ओर मुड़ गयी। उस महालदीने ऋषियोंके आगमनको सफल बनानेका निश्चय कर लिया था, इसीलिये यह अत्यन्त अद्भुत कार्य कर दिखाया। सरस्वतीका बनाया हुआ वह निकुञ्जोंका समुदाय ही 'नैमिषोय' नामसे विख्यात हुआ। वहाँके अनेकों कुञ्जों तथा पीछे लौटी हुई सरस्वती नदीको देखकर बलदेवजीको बड़ा विस्मय हुआ। वहाँ भी उन्होंने विधिवत् आचमन एवं स्नान किया और ब्राह्मणोंको भक्ति-भक्ति

भोज्य-पदार्थ तथा बर्तन दान करके वे सप्तसारस्वत नामक तीर्थमें चले गये; जहाँ वायु, जल, फल अथवा पत्ता खाकर रहनेवाले बहुत-से महात्मा थे। उनके स्वाध्यायका गम्भीर घोष सब ओर गूँज रहा था। वहाँ अहिंसक एवं धर्मपरायण मनुष्य निवास करते थे।

जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! सप्तसारस्वत तीर्थ कैसे प्रकट हुआ ? मैं इसका वृत्तान्त विधिपूर्वक सुनना चाहता हूँ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! सरस्वती-नामसे प्रसिद्ध सात नदियाँ हैं, ये सारे जगत्में फैली हुई हैं। इनके विशेष नाम हैं—सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला, मनोरमा, ओधवती, सुरेणु तथा विमलोदका। शक्तिशाली महात्माओं-ने मित्र-भिन्न देशोंमें एक-एक सरस्वतीका आवाहन किया है। एक समयकी बात है, पुष्करतीर्थमें ब्रह्माजीका एक महान् यज्ञ हो रहा था, यज्ञशालामें सिद्ध ब्राह्मण विराजमान थे। पुण्याह-घोष हो रहा था, सब ओर वेद-मन्त्रोंकी ध्वनि फैल रही थी, समस्त देवता यज्ञ-कार्यमें लगे हुए थे, स्वयं ब्रह्माजीने यज्ञकी दीक्षा ली थी। उनके यज्ञ करते समय सबकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण हो रही थीं। धर्म और अर्थमें कुशल मनुष्य मनमें जिस वस्तुका चिन्तन करते थे, वही उन्हें प्राप्त हो जाती थी। उस समय ऋषियोंने पितामहसे कहा—'यह यज्ञ अधिक गुणोंसे सम्पन्न नहीं दिखायी देता; क्योंकि अभीतक यहाँ सरिताओंमें श्रेष्ठ सरस्वतीका ही प्रादुर्भाव नहीं हुआ।' यह सुनकर ब्रह्माजीने सरस्वतीका स्मरण किया। उनके आवाहन करते ही 'सुप्रभा' नामवाली सरस्वती पुष्कर तीर्थमें प्रकट हो गयी। पितामहके सम्मानार्थ वहाँ सरस्वती नदीको प्रकट देख मुनियोंने उस यज्ञकी बड़ी प्रशंसा की।

इसी तरह नैमिषारण्यमें भी वेदके स्वाध्यायमें लगे रहनेवाले मुनियोंने सरस्वतीका आवाहन किया, उनके चिन्तन करते ही वहाँ 'काञ्चनाक्षी' नामवाली सरस्वती नदी प्रकट हो गयी। ऐसे ही, जब राजा गय यज्ञ कर रहे थे, उस समय उनके यहाँ भी सरस्वतीका आवाहन किया गया था। वहाँ 'विशाला' नामवाली सरस्वतीका आविर्भाव हुआ। उसकी गति बड़ी तेज है। वह हिमालयकी घाटीसे निकली हुई है। एक समयकी बात है, उत्तर कोसल प्रान्तमें उद्दालक मुनि यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने भी सरस्वतीका स्मरण किया। ऋषिके कारण वह नदी उस देशमें भी प्रकट हुई, जिसका मुनियोंने पूजन किया। वह 'मनोरमा' नामसे विख्यात हुई; क्योंकि ऋषियोंने पहले उसका अपने स्मरण कि

१. पत्थरसे फोड़े हुए फलका भोजन करनेवाले।

२. दाँतसे ही ओखलीका काम लेनेवाले अर्थात् ओखलीमें कूटकर नहीं, दाँतोंसे ही चबाकर खानेवाले।

३. गिने हुए फल खानेवाले।

'सुरेणु' नामवाली सरस्वती नदीका प्रादुर्भाव ऋषभ द्वीपमें हुआ। जिस समय राजा कुरु कुक्षेत्रमें यज्ञ कर रहे थे, उसी समय वहाँ सरस्वती प्रकट हुई। गङ्गाद्वारमें यज्ञ करते समय दक्ष प्रजापतिने जब सरस्वतीका स्मरण किया था तो वहाँ भी सुरेणु ही प्रकट हुई। इसी प्रकार महात्मा बसिष्ठजी भी एक बार कुक्षेत्रमें यज्ञ कर रहे थे, वहाँपर उन्होंने सरस्वतीका आवाहन किया; उनके आवाहनसे

'ओषधती'का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्माजीने एक बार हिमालय-पर्वतपर भी यज्ञ किया था, वहाँ जब उन्होंने सरस्वतीका स्मरण किया तो 'विषतोदका' प्रकट हुई। इन सानों सरस्वतियोंका जल जहाँ एकत्र हुआ है, उसे सप्तसरस्वत कहते हैं। इस प्रकार सैने तुमसे सान सरस्वतियोंके नाम और वृत्तान्त बताये। इन्होंने परमपवित्र सप्तसरस्वत तीर्थकी प्रतिष्ठा हुई है।



रघुङ्गके आश्रमपर आर्षट्येण आदि तथा विश्वामित्रकी तपस्या, यायाततीर्थकी महिमा और अरुणामे स्नान करनेसे इन्द्रका उद्धार

वंशम्पाधनजी कहते हैं—राजन्! बलरामजीने उस तीर्थमें आश्रमवासी ऋषियोंकी पूजा करनेके पश्चात् एक रात निवास किया। उन्होंने ब्राह्मणोंको दान दिये और स्वयं वहाँ रहकर रातभर उपवास किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर तीर्थके जलमें स्नान किया और सब ऋषि-मुनियोंकी आत्मा लेकर वे ओशनस तीर्थमें जा पहुँचे। उसे कपालमोचन तीर्थ भी कहते हैं। पूर्वकालमें भगवान् रामने यहाँ एक राक्षसको मारकर उसका सिर दूर फेंका था, वह सिर (कपाल) महोदर मुनिकी जाँघमें जा लगा था। वहाँपर उस मुनिने मुक्ति पायी थी तथा वहाँ शुक्राचार्यजीने तप किया था, जिससे उनके हृदयमें सम्पूर्ण नीति-विद्या स्फुरित हुई थी। बलरामजीने उस तीर्थमें पहुँचकर ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक धनका दान किया।

तपश्चत्त वे रघुङ्गके आश्रममें गये, जहाँ आर्षट्येणने घोर तपस्या की थी। रघुङ्ग मुनिने यहाँ अपने देहका त्याग किया था। उनकी कथा इस प्रकार है—रघुङ्ग एक बड़े ब्राह्मण थे, वे सदा तपस्यामें ही लगे रहते थे। एक दिन बहुत सोच-विचारकर उन्होंने अपना देह त्यागनेका निश्चय किया। उस समय उन्होंने अपने सब पुत्रोंकी बुलाकर कहा—'मुझे वृद्धक तीर्थमें ले चलो।' उनके पुत्र भी बड़े तपस्वी थे, वे अपने पिताको अत्यन्त वृद्ध जानकर सरस्वती नदीके पृथ्दक तीर्थपर ले गये। वहाँ पहुँचकर रघुङ्गने तीर्थके जलमें विधिपूर्वक स्नान किया और अपने पुत्रोंको बताया कि 'सरस्वती नदीके उत्तर किनारेपर जो यह पृथ्दक तीर्थ है, इममें स्नान करके गायत्री आदिका जप करते हुए जो पुत्र प्राण-त्याग करेगा, उसे पुनः जन्म-मरणका चक्र नहीं भोगना पड़ेगा।' बलरामजीने उस पवित्र तीर्थमें स्नान करके ब्राह्मणोंको दान दिये। इसके बाद उस स्थानपर पदायण

किया जहाँ लोकपितामह ब्रह्माजीने लोकोंकी सृष्टि प्रारम्भ की थी तथा जहाँ आर्षट्येण, सिन्धुद्वीप, देवाधि और विश्वामित्र आदि राजाधियोने महान् तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था।

जन्ममेजयने पूछा—मुनिवर! आर्षट्येणने किस प्रकार महान् तप किया? सिन्धुद्वीप, देवाधि तथा विश्वामित्र-ने भी कैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त किया? यह सब बातें मुझे बताइये?

वंशम्पाधनजीने कहा—राजन्! तप्युगको घात है, एक आर्षट्येण नामवाले ब्राह्मण थे, जो गुरुके घरमें रहकर सदा वेदोंके अध्ययनमें लगे रहते थे। यद्यपि उन्होंने बहुत अधिक समयतक गुरुकुलमें निवास किया तथापि न तो उनकी विद्या समाप्त हुई और न उन्हें वेदोंका ही पुरा अभ्यास हुआ। इससे वे मन-ही-मन बहुत दुखी हुए और कठोर तपस्यामें लग गये। उस तपके प्रभावसे उन्हें वेदोंका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे विद्वान् होनेके साथ ही सिद्ध हो गये। उन्होंने उस तीर्थमें तीन वर्षदान दिये—'आजसे जो मनुष्य सरस्वती नदीके इस तीर्थमें वृषकी लगायेगा, उसे अवबोध घनका पुरा-भूरा फल मिलेगा, यहाँ सपौंका भय नहीं रहेगा तथा घोड़े समयतक भी इस तीर्थका सेवन करनेसे महान् फलकी प्राप्ति होगी।'

इस प्रकार रघुङ्गके आश्रमपर ही आर्षट्येण मुनिने सिद्धि प्राप्त हुई थी। फिर वहाँ रात्रि सिन्धुद्वीप एवं देवाधिने तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था तथा सदा तपमें लगे रहनेवाले विश्वामित्रजीको भी वही ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ था। इसकी कथा यों है—पृथ्वीपर एक 'गर्धि' नामने विख्यात महान् राजा राज्य करते थे। विश्वामित्र उन्हींके पुत्र थे। कहते हैं, राजा गर्धि बड़े योगी थे, उन्होंने अपने

पुत्र विश्वामित्रको राज्य देकर स्वयं देह त्याग देनेका विचार किया। उस समय प्रजाजनोंने राजाको प्रणाम करके कहा—'महाराज ! आप वनमें न जाइये, हमारी महान् भयसे रक्षा कीजिये ।'

प्रजाके ऐसा कहनेपर गांधिने कहा—'मेरा पुत्र सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाला होगा ।' यों कहकर उन्होंने विश्वामित्रको राज्याभिहासनपर छोड़ा दिया और स्वयं शरीर त्याग कर स्वर्गकी राह ली। विश्वामित्र राजा तो हुए, किन्तु बहुत यत्न करनेपर भी वे पृथ्वीकी पूर्णतः रक्षा न कर सके। एक दिन उन्होंने सुना कि प्रजापर राक्षसोंका महान् भय बढ़ा हुआ है; अतः वे चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर राज्याभिहासने निकल पड़े। बहुत दूरतक रास्ता तै कर केके परचाह वे वसिष्ठ मुनिके आश्रमपर पहुँचे। वहाँ उनके लीनेकीने नाना प्रकारके अत्याचार किये। इतनेमें वसिष्ठ मुनि अत्यन्त आये। उन्होंने देखा कि यह महान् वन अत्यन्त उजाड़ किया जा रहा है, तो अपनी कामधेनु नीचे उतारे—'तू भयंकर भीलोंको उत्पन्न कर ।' ऋषिकी अज्ञा पाकर धेनुने भयंकर मनुष्योंको प्रकट किया, जिन्होंने विश्वामित्रकी सेनापर धावा करके उसे चारों ओर भगा दिया। विश्वामित्रने जब सुना कि मेरी सेना भाग गयी तो उन्होंने तपस्याको ही सबसे बढ़कर माना और मन-ही-मन तप करनेका निश्चय किया।

तपश्चात् वे सरस्वतीके उपर्युक्त तीर्थमें ही आये और चित्तको एकाग्र करके ब्रत और नियमोंका पालन करते हुए शरीरको सुखाने लगे। कुछ कालतक जल पीकर रहे, फिर वायुका आहार करने लगे, इसके बाद पत्ते चबाकर रहने लगे। इतना ही नहीं, वे खुले मैदानमें जमीनपर सोने तथा ओर भी बहुत-से नियमोंका पालन करने लगे।

समयान्तर, देवताओंने उनके व्रतमें विघ्न डालना बरतना किया, किन्तु किसी तरह उनका मन न डग सका। वे बहुत प्रयत्न करके अनेकों प्रकारके तप करने लगे। उस समय वे अपने कर्मान्तरोंको दिलायी देने लगे। उन्हें ऐसी शक्ति मिली कि वे देव ब्रह्माजी आये और उन्हें चर-चर-चर-चर कहकर ब्रह्माजीने यही वर माँगा कि 'मैं ब्रह्माजीके व्रतमें तपस्तु' कहकर उनकी प्रार्थना करने लगे। इन प्रकार महायशस्वी विश्वामित्र देवताओंके व्रतोंका ब्रह्मण्यत्व पाकर कृतार्थ हो गये।

इस व्रतमें बलरामजीने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी सेवा की। वे बहुत-से धन, दूध देनेवाली गीर्ण, घाहन, शिला, अन्न-प्रामाण्य तथा खाने-पीनेकी सुन्दर धरतुओं

गये, जहाँ वेदमन्त्रोंकी ध्वनि गूँजती रहती है। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्राह्मणोंको रथ, हीरे, माणिक्य तथा अन्न-धन आदि दान किये। वहाँसे यायात तीर्थमें गये। जहाँ राजा ययातिके यज्ञमें सरस्वती नदीने घी और दूधकी धारा बहायी थी। वहाँ यज्ञ करके ययातिने उपरके लोकोंमें गमन किया था। सरस्वतीने राजा ययातिकी उदारता तथा अपने प्रति उनकी सनातन भक्ति देखकर उनके यज्ञमें आये हुए ब्राह्मणोंकी सारी कामनाएँ पूर्ण की थीं। राजाका यज्ञ-बंधन देखकर देवता और गन्धर्व बहुत प्रसन्न थे, परंतु मनुष्योंको बड़ा आश्चर्य होता था। उस तीर्थमें भी नाना प्रकारके दान करके बलरामजी वसिष्ठापवाह तीर्थमें गये। वहीं स्थाणु तीर्थ है, जहाँ वसिष्ठ और विश्वामित्रने तपस्या की थी तथा जहाँ देवताओंने कार्तिकेयजीका सेनापतिके पदपर अभिषेक किया था। इसी तीर्थमें स्नान करनेसे देवराज इन्द्रको ब्रह्महत्याके पापसे छुटकारा मिला था।

जनमेजयने पूछा—'ब्रह्मण् ! इन्द्रकी ब्रह्महत्याका पाप कैसे लगा ? तथा इस तीर्थमें स्नान करके उन्हें उससे छुटकारा किस तरह मिला ?'

वैशम्पायनजीने कहा—'राजन् ! प्राचीन कालकी बात है, नमुचि इन्द्रके भयसे डरकर सूर्यकी किरणोंमें समा गया था। तब इन्द्रने उससे मित्रता कर ली और यह प्रतिज्ञा की कि 'मैं न तो तुम्हें गीले हाथियारसे मारूँगा, न सूखसे; न दिनमें मारूँगा, न रातमें। यह बात मैं सत्यकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ।' इस प्रकारकी प्रतिज्ञा कर लेनेपर एक दिन जब कि चारों ओर कुहासा छा रहा था, इन्द्रने पानीके फेनसे नमुचिका सिर काट लिया। वह कटा हुआ मस्तक इन्द्रके पीछे-पीछे गया और बोला—'मित्रकी हत्या करनेवाले पामी ! कहाँ जाता है ?' इस प्रकार जब उस मस्तकने बारंबार टोका तो इन्द्र घबरा उठे। उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर यह सब समाचार सुनाया। ब्रह्माजीने कहा—'इन्द्र ! तुम अरुणा नदीमें मस्तक डालो। पूर्व-कालमें सरस्वतीने गुप्तरूपसे अरुणा नदीमें गिराया था, पूर्ण किया था, अतः वह अरुणा नदीमें ही संगम है। वहाँ जाकर यज्ञ लगानेसे द्रस भयंकर पापसे छुटकारा मिलेगा।' ब्रह्माजीके ऐसा निष्पत्तयज्ञमें गये और वहाँ व्रत करके अरुणा नदीमें शरीर अर्पण कर दिया। ऐसा करनेसे ही शरीर अर्पण प्रसन्न हो

दान किये और वहाँसे सोम तीर्थकी ओर पात्रा की। पूर्व-कालमें सोमने यहाँ राजसूय यज्ञ किया था, जिसमें अवि मुनि होता बने थे। उस यज्ञकी समाप्ति हो जानेपर बानव, दंत्य तथा राक्षसोंका बेवताओंके साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसे तारक-संग्राम कहते हैं, उसमें स्वामी कार्तिकेयने तारकामुरको मारा था। उसी तीर्थमें कार्तिकेयजी देवसेनाके

सेनापति बनाये गये तथा सादाके लिये उज्जोने वहाँ धपना निवास बना लिया। यहीं बरुणका भी जलके राश्यापर अभिषेक हुआ था। वसुदेवजीने उस तीर्थमें स्नान करके स्वामी कार्तिकेयका पूजन किया और ब्राह्मणोंको गुणधन, यज्ञ तथा आभूषण दान किये। फिर एक रात वहाँ निवास करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई।

सोमतीर्थ, अग्नितीर्थ और बदरपाचनतीर्थकी महिमा

जनमेजयने पूछा—मुनिवर! देवताओंने सोमतीर्थमें बरुणका किस तरह अभिषेक किया? इसकी कथा मुझे सुनाइये।

वंशम्पायनजीने कहा—राजन्! पहले सत्ययुगकी बात है, समस्त देवता बरुणके पास जाकर बोले—'भगवान्! देवराज इन्द्र जैसे सदा हमलोगोंकी भयसे रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी सब सरिताओंका पालन कीजिये। समुद्रमें आपका निवास होगा और समुद्र सदा आपके अधीन रहेगा। चन्द्रमाके घटने-बढ़नेके साथ ही आपकी भी हानि और वृद्धि होगी।'

बरुणने 'एवमस्तु' कहकर देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर सबने एकत्र होकर उनको जलका राजा बनाया और उनका अभिषेक करके पूजन किया। तत्परचात् वे अपने-अपने धामको चले गये। फिर इन्द्र जैसे देवताओंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बरुण भी नदी, नद, सरोवर तथा समुद्रको रक्षा करने लगे।

उस तीर्थमें पहुँचकर बलरामजीने स्नान किया और ब्राह्मणोंको दान देकर वहाँसे वे अग्नितीर्थमें गये। वहाँ शम्भोके भीतर छिप जानेके कारण अग्निदेव किसीको दिखायो नहीं पड़ने थे। उस समय जब संसारका प्रकाश नष्ट हो गया तो सब देवता ब्रह्माजीके पास उपस्थित हुए और बोले—'प्रभो! भगवान् अग्निदेव नहीं दिखायी पड़ते, इसका क्या कारण है? वहाँ ऐसा न हो कि अग्निने अमावसमें सम्पूर्ण प्राणियोंका नाश हो जाय। अतः आप अग्निदेवको प्रकट कीजिये।'

जनमेजयने पूछा—सम्पूर्ण जगत्की उत्पन्न करनेवाले भगवान् अग्नि अदृश्य क्यों हो गये थे? और देवताओंने उनका पता किस तरह लगाया? यह सब मुझे ठीक-ठीक बताइये।

वंशम्पायनजीने कहा—राजन्! यहाँ भृगुने अग्निदेवको शाप दे दिया था, इससे अत्यन्त भयभीत होकर वे

शम्भोके भीतर छिप गये। उनके अदृश्य हो जानेपर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंने अत्यन्त दुःखी होकर उनको षोडश आरम्भ की। षोडशे-सोडशे अग्नितीर्थमें आकर उज्जोने अग्निदेवको शम्भोके भीतर छिपे देखा। उन्हें धारक राक्षको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जीते आये थे, घंटे ही लौट गये। अग्निदेव भी ब्रह्मवादी भृगुके शापके अनुसार सर्वभक्षी हो गये। फिर उसी तीर्थमें स्नान करनेसे उन्हें ब्रह्मवादी प्राप्ति हुई। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने भी सब देवताओंके साथ अग्नितीर्थमें डूबकी लगायी थी तथा वहाँ भिन्न-भिन्न देवताओंके तीर्थोंका उद्घाटन किया था।

बलरामजी वहाँ स्नान-दान करके कौबेर तीर्थमें गये, जहाँ बड़ी भारी तपस्या करके बुधेर धनके स्वामी हुए थे। वहाँ स्नान करके बलरामजीने ब्राह्मणोंको धन दान किया, इसके बाद बुधेरधनमें जाकर उता स्नानका दर्शन किया, जहाँ बुधेरने तप किया था। बलरामजीने वहाँ बहुत-से धरवान प्राप्त किये थे। धनका प्रशुभ्य, शंकरजीके साथ मित्रता, देवत्व, लोकपालत्व और तपस्वर-अंता पुत्र—एह सब कुछ बुधेरने वहाँ तपस्या करके पाया था। वहाँ मरुद्गणोंने एकत्रित होकर बुधेरका लोकशापके पदपर अभिषेक किया और उन्हें पक्षोंका राज्य तथा हंसोंसे जुता हुआ पुष्पकविमान प्रदान किया। ब्रह्मदेवजीने वहाँ भी स्नान करके बहुत कुछ दान किया। इसके बाद वे बदरपाचन नामक तीर्थमें गये। वहाँ पूर्वजाममें मरुद्गणोंकी अनूपम रूपवती बन्धा धनदात्रीने इन्द्रकी भयना पति बनानेके लिये उग्र तपस्या की थी। उनने ब्रह्मचर्यका पावन करते हुए बहुत-से बटोर नियमोंका पालन किया था। उनका सदाचार, तप और धर्मन देवदेव इन्द्र उनके उग्र प्रमत्त हो गये तथा उने प्रथमतः दर्शन देकर उज्जोने कहा—'शुभे! मैं तुम्हारी तपस्या, नियमपालन और धर्मनने बहुत मनुष्ट हूँ, इसलिये तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और परम शरीर त्याग कर तुम मेरे साथ स्वर्गलोकमें निवास करोगी।'

महाभाग ! इस पवित्र तीर्थमें अरुघतीसहित सप्तर्षि रहा करते थे । एक दिन वे अरुघतीको यहाँ अकेली छोड़कर स्वयं जीविकानिर्वाहके लिये फल-भूल लानेको हिमालय-पर चले गये । वहाँ उस समय बारह वर्षोंके लिये वर्षा रुक गयी थी । जब ऋषियोंको वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो वे आश्रम बनाकर रहने लगे । इधर, कल्याणी अरुघती निरन्तर तपस्यामें ललंगन हो गयी । उसे कठोर नियमका पालन करती देख वरदायक भगवान् शंकर अत्यन्त प्रसन्न हो ब्राह्मणका रूप बनाकर वहाँ आये और बोले—'कल्याणी, मैं मित्रा चाहता हूँ ।' अरुघतीने कहा—'विप्रवर ! अन्न तो समाप्त हो गया है, सिर्फ थोड़े-से बेर रखे हैं, इन्हें खा लीजिये ।' महादेवजीने कहा—'शुभे ! इन फलोंको आगपर पका दो ।' यह सुनकर अरुघती ब्राह्मणदेवताका प्रिय करनेके लिये फलोंको प्रज्वलित अग्निपर रखकर पकाने लगी । उस समय उसे परम पवित्र, मनोहर एवं दिव्य कयाएँ सुनायी देने लगीं । वह बिना खाये ही बेर पकाती और कया चुनती रहती; इतनेमें बारह वर्षोंकी वह भयंकर अनावृष्टि समाप्त हो गयी । वह दारुण समय उसे एक दिनके समान ही प्रतीत हुआ । तदनन्तर, सप्तर्षि भी फल लेकर वहाँ आ पहुँचे । तब भगवान्ने प्रसन्न होकर कहा—'धर्मको जाननेवाली देवी, अब तुम पहलेकी ही भाँति इन ऋषियोंकी सेवा करो । तुम्हारा तप और नियम देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है ।'

'यह कहकर भगवान् शंकरने अपना स्वरूप प्रकट किया और ऋषियोंसे उसके महत्त्वपूर्ण आचरणका वर्णन करते हुए कहा—'मुनियो ! तुमने हिमालयकी घाटीमें रहकर जित तपका उपार्जन किया है और इस अरुघतीने यहाँ रहकर जो तप किया है, इन दोनोंमें कोई समानता नहीं है । अरुघतीका

ही तप श्रेष्ठ है । इसने बारह वर्षोंतक बिना भोजन किये बेर पकाते हुए दुष्कर तपका अनुष्ठान किया है ।' इसके बाद उन्होंने पुनः अरुघतीसे कहा—'कल्याणि ! तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो, वरदान माँग लो ।' तब वह बोली—'भगवन् ! यदि आप प्रसन्न हैं तो यह स्नान 'बदरपावन' नामक तीर्थ हो जाय और सिद्धों तथा देवर्षियोंको यह बहुत प्रिय जान पड़े । जो मनुष्य इस तीर्थमें पवित्रतापूर्वक तीन रात्रि निवास तथा उपवास करे, उसे बारह वर्षोंतक तीर्थसेवन एवं उपवास करनेका फल प्राप्त हो ।'

'भगवान् शंकरने 'एवमस्तु' कहकर उसके वरका अनुमोदन किया । फिर सप्तर्षियोंद्वारा की हुई स्तुति सुनकर वे अपने धामको चले गये । अरुघती इतने वर्षोंतक भूल-भ्यास सहकर भी न तो पकी और न उसके बदनपर उदासी ही छायी । उसको इस अवस्थामें देख ऋषियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ ।

'इस प्रकार अरुघतीने यहाँ परम सिद्धि प्राप्त की थी, तुमने भी मेरे लिये अरुघतीकी ही भाँति उत्तम व्रतका पालन किया है । मैं तुम्हारे नियमसे संतुष्ट होकर इस तीर्थके सन्मन्थमें एक विशेष वरदान देता हूँ—जो मनुष्य इस तीर्थमें स्नान करके एकाग्रचित्त हो एक रात भी यहाँ निवास करेगा, वह देह त्यागनेके पश्चात् दुर्लभ लोकोंमें जायगा ।'

वैशम्पायनजी कहते हैं—'पवित्र चरित्रवाली श्रुताचतीसे ऐसा कहकर इन्द्र स्वर्गको चले गये । उनके जाते ही वहाँ फूलोंकी वर्षा होने लगी । देवताओंकी दुन्दुभी बज उठी । सुगन्धित हवा चलने लगी । उसी समय श्रुताचती भी शरीर त्याग कर स्वर्ग चली गयी और वहाँ इन्द्रकी पत्नीके रूपमें रहने लगी । बलभद्रजी उस बदरपावनतीर्थमें स्नान करके ब्राह्मणोंको धन दानकर इन्द्रतीर्थमें चले गये ।

इन्द्रतीर्थ और आदित्यतीर्थकी महिमा, देवल-जैगीषव्य मुनि तथा वृद्धकन्याक्षेत्रकी कथा

वैशम्पायनजी कहते हैं—'वहाँ जाकर बलरामजीने विधिबत् स्नान किया और ब्राह्मणोंको धन तथा रत्न दान दिये । इन्द्रतीर्थमें देवराजने सी यज्ञ किये थे, जिनमें वृहस्पतिजीको बहुत-सा धन दिया गया था । अनेकों प्रकारकी दक्षिणाएँ बाँटी गयी थीं । इस प्रकार सी यज्ञ पूर्ण करनेके कारण इन्द्र 'शतऋतु' के नामसे विख्यात हुए और उन्हींके नामपर वह परम पवित्र, कल्याणकारी एवं सनातन तीर्थ 'इन्द्रतीर्थ' कहलाने लगा । वहाँ स्नान-दान करनेके पश्चात् बलरामजी रामतीर्थमें पहुँचे, जहाँ परशुरामजीने अनेकों बार

क्षत्रियोंका संहार करके इस पृथ्वीपर विजय पायी और कश्यप मुनिको आचार्य बनाकर वाजपेय तथा सी अश्वमेध यज्ञ किये । उन्होंने समुद्रसहित सम्पूर्ण पृथ्वी ही इक्षिणाके रूपमें दे दी थी तथा और भी नाना प्रकारके दान बेकर बे वनमें चले गये थे । उस पावन तीर्थमें रहनेवाले मुनियोंको सादर प्रणाम करके बलरामजी यमुनातीर्थमें आये, जहाँ बरुणने राजसूय यज्ञ किया था । वहाँ ऋषियोंकी पूजा करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया तथा दूतसे याचकोंको भी उनके इच्छानुसार दान दिया । इसके बाद वे आदित्यतीर्थमें

गये, जहाँ भगवान् भूमिने परमात्माका पजन करके ज्योतिर्षोका आधिपत्य तथा अनुपम प्रभाव प्राप्त किया था। इनके सिवा, इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता, विरभेदेय, मरुद्गण, गण्डर्व, अक्षरा, इंद्रपायन व्यास, शुक्रदेव तथा दूसरे अनेकों योगसिद्ध महात्माओं-ने भी सरस्वतीके उस पवित्र तीर्थमें सिद्धि प्राप्त की है।

पूर्वकालमें यहाँ देवलमुनि गृहस्थ-धर्मका आश्रय लेकर रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। मन, बाणी तथा त्रियसि भी समस्त जांचोके प्रति समान भाव रखते थे। श्रेष्ठ तो उन्हें छू नहीं गया था। उनकी कोई निन्दा करे या स्तुति, वे सबको समान समझते थे, अनुकूल या प्रतिकूल बस्तुको प्राप्ति होनेपर उनकी वृत्ति एकसी ही रहती थी। वे धर्मराजके समान समदर्शी थे। सुवर्ण और मिट्टीके ढेलोकी एक ही मज्जरसे देखते थे। देवता, अतिथि तथा ब्राह्मणोंकी सदा पूजा किया करते और प्रतिदिन ब्रह्मचर्यकी रक्षा करते हुए धर्माचरणमें संलग्न रहते थे।

एक दिन जंगीपथ्य मुनि उस तीर्थमें आये और अपनी योगशक्तिसे मिस्रुकका वेप बनाकर देवलके आश्रमपर रहने लगे। महावि जंगीपथ्य सिद्धिप्राप्त योगी थे और सदा योगमें ही उनकी स्थिति रहती थी। यद्यपि जंगीपथ्य देवलके आश्रमपर ही रहते थे, तो भी देवल मुनि उन्हें दिखाकर योग-साधना नहीं करते थे। इस तरह दोनोंको यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया।

तदनन्तर, कुछ कालतक ऐसा हुआ कि जंगीपथ्य मुनि सदा नहीं दिखायी देते, केवल भोजनके समय ही देवलके आश्रमपर उपस्थित होते थे। उस समय देवल अपनी शक्तिके अनुसार शास्त्रीय विधिसे उनका पूजन एवं आतिथ्य-सत्कार करते थे। यह नियम भी बहुत वर्षोतक चला। एक दिन जंगीपथ्य मुनिको देवलके देवलके मनमें बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने सोचा 'इनकी पूजा करते-करते कितने ही वर्ष बीत गये;' मगर ये मिस्रु आजतक मुझसे एक बात भी नहीं बोले।

यही सोचते हुए वे कलस हाथमें ले आकाशमार्गसे समुद्रतटकी ओर चल दिये। यहाँ जाकर देला तो मिस्रु मरोदय पहलेसे ही समुद्रतटपर मौजूद थे। अब तो उन्हें चिन्ताके साथ-ही-साथ आश्चर्य भी हुआ। सोचने लगे—'यि पहले ही कैसे आ पहुँचे? इन्होंने तो स्नान भी समाप्त कर लिया है!' तदनन्तर, महावि देवलने भी विधिपूर्वक स्नान करके गायत्री-मन्त्रका जप किया। जब नित्य-नियम समाप्त हो गया तो वे पुनः आश्रमकी ओर चले। यहाँ पहुँचते ही उन्हें जंगीपथ्य मुनि बँटे दिखायी पड़े। अब देवल मुनि पुनः विचारमें पड़ गये—'मिने तो इन्हें समुद्रतटपर देला है, ये आश्रमपर कब और कैसे आ गये।'

यह सोचकर उनके मनमें जंगीपथ्यको ठोक-ठीक जाननेकी इच्छा हुई, फिर तो वे उस आश्रमसे आकाशकी ओर उड़े। ऊपर जाकर उन्हें बहुत-से अन्तरिक्षकारी सिद्धोंका दरांन हुआ, साथ ही, उन सिद्धोंके द्वारा पूजे जाते हुए जंगीपथ्य मुनि भी दिखायी पड़े। इसके बाद देवलने उन्हें स्वर्गलोक जाते देला, वहाँसे पितृलोकमें, पितृलोकसे यमलोकमें, यहाँसे चन्द्रलोकमें तथा चन्द्रलोकसे एकान्तमें धन करनेवाले अग्निहोत्रियोंके उत्तम लोकोमें उन्हें गमन करते देला। इसी तरह दरां-योगमास याग करनेवालोंके लोकोमें तथा अन्य बहुतेरे लोकोमें भी वे जाते दिखायी पड़े। दूरों, वसुओं तथा बृहस्पतिके स्थानपर भी वे पहुँचे पाये गये।

तत्पश्चात्, वे पतिप्रतापके लोकोमें जाकर अन्तर्धान हो गये। फिर देवल मुनि उन्हें न देख सके। तब उन्होंने जंगीपथ्यके प्रभाव, व्रत और अनुपम योगसिद्धिके विषयमें विचार करते हुए सिद्धोंसे पूछा—'अब मुझे महान् तेजस्वी जंगीपथ्य नहीं दिखायी देते, आपलोग उनका पता बतावें।' सिद्धोंने कहा—'देवल! जंगीपथ्य ब्रह्मलोकमें चले गये, यहाँ दुम्हारी गति नहीं है।'

सिद्धोंकी बात सुनकर देवल मुनि क्रमशः नीचेके लोकोमें होते हुए भूमिपर उतरने लगे। जब अपने आश्रमपर पहुँचे तो यहाँ पहलेसे ही बँटे हुए जंगीपथ्यपर उनकी वृत्ति पड़ी। वे उनके तप और योगका प्रभाव देख चुके थे, इसलिये अपनी धर्मयुक्त शुद्ध बुद्धिसे कुछ देर विचार किया; फिर वित्याज्यत होकर वे मुनिकी शरणमें गये और बोले—'भगवन्! मैं मोक्षधर्मका आश्रय लेना चाहता हूँ।' उनकी बात सुनकर और संन्यास लेनेका विचार जानकर जंगीपथ्यने उन्हें शानोपदेश किया; साथ ही योगकी विधि बताकर शास्त्रके अनुसार कर्तव्य-अर्हत्वका भी उपदेश दिया।

मुनिवर देवलने भी गृहस्थ-धर्मका परित्याग करके मोक्ष-धर्ममें प्रीति लगायी और परा सिद्धि एवं परम योगको प्राप्त किया? राजा जनमेजय! जंगीपथ्य और देवल दोनों महात्माओंका जहाँ आश्रम था, वह उत्तम स्थान ही तीर्थ बन गया। बलरामजीने उस तीर्थमें आचमन करके ब्राह्मणोंको दान किया और अन्य धार्मिक कार्य सम्पन्न करके वे यहाँसे चलकर सारस्वत तीर्थमें पहुँचे, जहाँ पूर्वकालमें जब बारह वर्षोतक यहाँ नहीं हुई थी, उस समय सस्वती-तुव सारस्वत मुनिने ब्राह्मणोंको वेद पढ़ाया था। सारस्वतमुनिके नामसे प्रसिद्ध हुए उस तीर्थमें धन दान करके बलरामजी यहाँसे आगे बढ़े और जहाँ वृद्धकन्याने तप किया था, उस प्रसिद्ध तीर्थमें जा पहुँचे।

जनमेजयने पूछा—मुने ! पूर्वकालमें कुमारीने किस उद्देश्यसे तप किया था और उस तपमें किस नियमोंका पालन किया गया था ? जिस प्रकार वह तपस्यामें प्रवृत्त हुई, उसका सारा वृत्तान्त सुनाइये ।

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! प्राचीन कालमें एक 'कुण्डिगर्ग' नामक महान् यशस्वी ऋषि ही गये हैं; उन्होंने बड़ी तपस्या करके अपने मनसे ही एक मुन्दरी कन्या उत्पन्न की । पुत्रोंको देखकर मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई । कुछ कालके पश्चात् वे इस शरीरका त्याग करके स्वर्गमें चले गये । अब आश्रमका भार उस कन्याके ही ऊपर आ पड़ा । वह बहुत श्रेष्ठ उठाकर उग्र तपस्यामें संलग्न हुई और निरन्तर उपवास करती हुई पितरों तथा देवताओंकी पूजा करने लगी । उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय बीत गया । वह बूढ़ी और दुबली हो गयी । तब उसने परलोक में जानेका विचार किया । उसकी देहत्यागकी इच्छा देव नारदजीने आकर कहा—'देवि ! तुम्हारा तो अभी संस्कार (विवाह) ही नहीं हुआ है, फिर तुम्हें उत्तम लोक कैसे मिल सकते हैं ? यह बात मैंने देवलोकमें सुनी है । तुमने तपस्या तो बहुत बड़ी की, पर तुम्हें उत्तम लोकोंपर अधिकार नहीं प्राप्त हो सका ।'

नारदकी बात सुनकर वह ऋषियोंकी सभामें जाकर बोली—'जो कोई मेरा पाणिग्रहण करेगा, उसे मैं अपनी तपस्याका आधा भाग दे दूंगी ।' उसके ऐसा कहनेपर गालवके पुत्र शृङ्गवान्ने कहा—'कल्याणी ! मैं इस शर्तपर तुम्हारा पाणिग्रहण करूँगा कि विवाह हो जानेपर तुम एक रात मेरे साथ निवास करो ।'

बूढ़ा कुमारीने 'हाँ' कहकर अपना हाथ मुनिके हाथमें दे दिया । गालवनन्दने शास्त्रीय विधिके अनुसार हवन आदि करके उसका पाणिग्रहण संस्कार किया । रात्रिके समय वह मुन्दरी तरणी बनकर मुनिके पास गयी । उस समय उसके शरीरपर दिव्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे । दिव्य हार तथा दिव्य अङ्गरागोंकी सुगन्ध फैल रही थी । उसकी छविसे चारों ओर प्रकाश-सा ही रहा था । उसे देखकर शृङ्गवान् ऋषिको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने एक रात उसके साथ निवास किया । सबेरा होते ही वह मुनिने बोली—'विप्रवर ! आपने जो शर्त की थी, उसके अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी, अब आज्ञा दीजिये, मैं जाती हूँ ।'

यह कहकर वह वहाँसे चल दी । जाते-जाते उसने फिर कहा—'जो अपने चित्तको एकाग्र कर देवताओंको नृप करके इस तीर्थमें एक रात निवास करेगा, उसे अट्टावन वर्षोंतक ब्रह्मचर्य-पालन करनेका फल मिलेगा ।' ऐसा कहकर वह साध्वी देह त्यागकर स्वर्गमें चली गयी और मुनि उसके दिव्य रूपका चिन्तन करते हुए बहुत दुःखी हो गये । उन्होंने प्रतिज्ञाके अनुसार उसके तप का आधा भाग ले लिया और उसने अपनेको सिद्ध बनाकर फिर उसीकी गति का अनुसरण किया । राजन् ! यही वृद्धकन्याका परिचय है, जो तुम्हें सुना दिया । बलरामजीने इसी तीर्थमें आने-पर शल्यकी मृत्युका समाचार सुना था । वहाँ भी उन्होंने ब्राह्मणोंको बहुत कुछ दान किया । तत्पश्चात् समन्तपञ्चक द्वारसे निकलकर उन्होंने ऋषियोंसे क्रुशक्षेत्र-सेवनका फल पूछा । तब उन महात्माजीने बलरामजीसे उग्र क्षेत्रके सेवनका ठीक-ठीक फल बताया ।

समन्तपञ्चकतीर्थ (क्रुशक्षेत्र) की महिमा तथा नारदजीके कहनेसे बलदेवजीका भीम और दुर्योधनका युद्ध देखने जाना

ऋषियोंने कहा—बलरामजी ! समन्तपञ्चक क्षेत्र सनातन है, यह प्रजापतिकी उत्तर वेदी कहलाता है । प्राचीन कालमें देवताओंने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया था तथा युद्धिमान् महात्मा राजर्षि क्रुशने पहले बहुत वर्षोंतक इस क्षेत्रको जमीन जोती थी, इसलिये उन्हींके नामपर यह 'क्रुशक्षेत्र' कहा जाने लगा ।

बलरामजीने पूछा—मुनिवरों ! महात्मा क्रुशने इस क्षेत्रमें हल क्यों चलाया ?

ऋषियोंने कहा—बलरामजी ! पूर्वकालमें राजा क्रुश जब यहाँ प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे, उन्हीं

दिनोंकी बात है, इन्द्रने स्वर्गसे आकर क्रुशसे इसका कारण पूछा—'राजन् ! आप इतना बड़ा प्रयास क्यों कर रहे हैं ? यहाँकी जमीन जोतनेसे आपका क्या लाभि प्राय है ?' क्रुशने कहा—'इन्द्र ! जो लोग इस क्षेत्रमें मरेंगे वे पुण्यवानोंके लोकमें जायेंगे ।'

यह जवाब सुनकर इन्द्रको हँसी आ गयी । वे चुपचाप स्वर्ग लौट गये । इससे राजर्षि क्रुशका उत्साह क्रम नहीं हुआ, वे वहाँकी जमीन जोतनेमें लगे ही रह गये । इन्द्रने कई बार आकर प्रश्न किया, किन्तु वही उत्तर पाकर वे हर बार लौट गये । क्रुशने भी कठोर तपस्याके साथ हल जोतना

आरम्भ किया। तब इन्द्रने उनका मनोमाय देवताओंसे कह मुनाया। सुनकर देवता बोले—'अगर सम्भव हो तो राजपिकी बरवान देकर राजी कर सीजिये। नहीं तो यदि ये अपने प्रयत्नमें सफल हो गये और मनुष्य यज्ञ किये बिना ही स्वर्गमें जाने सगे तो हमलोगोंका यज्ञभाग नष्ट हो जायगा।'

तब इन्द्रने कुपके पास आकर कहा—'राजन् ! अब आप कष्ट न उठाइये, मेरी बात मानिये; मैं बरवान देता हूँ कि जो मनुष्य अथवा पशु यहाँ निराहार रहकर या युद्धमें मारे जाकर शरीर त्याग करेंगे, वे स्वर्गके अधिकारी होंगे।' राजा कुपने 'बहुत अच्छा' कहकर इन्द्रकी आज्ञा स्वीकार की और इन्द्र भी राजाकी अनुमति से प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गको चले गये।

बलरामजी ! इस प्रकार शम उद्देशसे राजपि कुपने इस क्षेत्रको जोता था। पृथ्वीपर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान नहीं है। जो मनुष्य यहाँ तप करेंगे, वे देहत्यागके परचात् ब्रह्मलोकमें जायेंगे। जो दान करेंगे उनका दिया हुआ हजार गुना होकर फल देगा। जो सदा यहाँ निवास करेंगे, उन्हें धमराजके राज्यमें नहीं जाना पड़ेगा। यदि राजा लोग यहाँ आकर बड़े-बड़े यज्ञ करें तो जबतक यह पृथ्वी कायम रहेगी तबतकके लिये उन्हें स्वर्गमें रहनेका सीमाय प्राप्त होगा। साक्षात् इन्द्रने भी कुरुक्षेत्रके विषयमें यह उद्गार प्रकट किया है—'कुरुक्षेत्रको धूल भी यदि हवासे उड़कर किसी पापीके ऊपर पड़ जाय तो वह उसे उत्तम लोकमें पहुँचाती है। यहाँ बड़े-बड़े देवता, उत्तम ब्राह्मण तथा नृग आदि नरेश भी यज्ञ करके उत्तम गतिको प्राप्त हो चुके हैं। तरन्तुकसे लेकर आरन्तुक तक तथा रामहृदसे आरम्भ करके यमचक्र तकके बीचका जो स्थान है, यही कुपक्षेत्र एवं समन्तपञ्चक तीर्थ है। इसे प्रजापतिकी उत्तर देवी भी कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र एवं कल्याणकारी है, देवताओंने भी इसका सम्मान किया है। यह सभी सद्गुणोत्तम सम्पन्न है; अतः यहाँ मरे हुए सब क्षत्रिय अक्षय गतिको प्राप्त होंगे।' इस प्रकार साक्षात् इन्द्रने यह बात कही और ब्रह्मण, विष्णु तथा शिव आदि देवताओंने इसका समर्पण किया था।

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर, कुरुक्षेत्रका दशान और यहाँ बहुत-सा दान करके बलरामजी एक विषय आधमके निकट गये। यहाँ पहुँचकर उन्होंने मुनिवोसे पूछा—'यह सुन्दर आधम किसका है?' तब उन्होंने कहा—'बलरामजी ! पहले तो यहाँ भगवान् विष्णु तपस्या कर चुके हैं, फिर अक्षय फल देनेवाले कई यज्ञ भी इस आधमपर हुए हैं। बाल्यकालसे ही ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाली एक

सिद्ध ब्राह्मणी भी यहाँ तपस्या कर चुकी है। वह शाण्डिल्य मुनिकी पुत्री थी।'

श्रुतिवोकी बात सुनकर बलभद्रजीने उन्हें प्रणाम किया और हिमालयके समीप स्थित उस आधममें गये। यहाँके उत्तम तीर्थका तथा सरस्वतीके उद्गममूल खोजता दशान करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद काश्यपन तीर्थमें जाकर उन्होंने यहाँके स्वर्ण, शीतल एवं पवित्र जलमें डूबकी लगामी तथा देवताओं और पितरोंका तर्पण करके ब्राह्मणोंको दान दिया। फिर एक रात यहाँ निवास करके वे ब्राह्मणों और संन्यासियोंके साथ मित्रावश्यके पवित्र आधमपर गये। वह स्थान यमुनाके तटपर है। सर्वप्रथम उस स्थानपर आकर इन्द्र, अग्नि तथा अमंमा बहुत प्रसन्न हुए थे। बलरामजी यहाँ स्नान-दान करके श्रुतिवो और सिद्धोंके साथ बैठकर उत्तम कथाएँ सुनने लगे।

उसी समय देवपि नारदजी दण्ड, कमण्डलु और मनोहर घोषा लिये यहाँ आ पहुँचे। उन्हें आते देख बलरामजी



उठकर सड़े हो गये और उनका विधिमत पूजन करके उनसे कौरवोंका समाचार पूछने लगे। नारदजीने, जिसे प्रकार कौरवोंका महासंहार हुआ था, वह सब ज्यों-का-र्यों सुना दिया। तब बलभद्रजीने दुःख प्रकट करते हुए कहा—'तपोधन ! उस क्षेत्रकी क्या अवस्था है तथा यहाँ आये हुए राजाओंकी क्या दशा हुई है? यह सब संशोकके साथ मैं पढ़ने

जनमेजयने पूछा—मुने ! पूर्वकालमें कुमारीने किस उद्देश्यसे तप किया था और उस तपमें किन नियमोंका पालन किया गया था ? जिस प्रकार वह तपस्यामें प्रवृत्त हुई, उसका सारा वृत्तान्त सुनाइये ।

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! प्राचीन कालमें एक 'कुण्डिनी' नामक महान् यशस्वी ऋषि हो गये हैं; उन्होंने बड़ी तपस्या करके अपने मनसे ही एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न की । पुत्रीको देखकर मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई । कुछ कालके पश्चात् वे इस शरीरका त्याग करके स्वर्गमें चले गये । अब आश्रमका भार उस कन्याके ही ऊपर आ पड़ा । वह बहुत श्लेश उठाकर उग्र तपस्यामें संलग्न हुई और निरन्तर उपवास करती हुई पितरों तथा देवताओंकी पूजा करने लगी । उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय बीत गया । वह वृद्ध और दुबली हो गयी । तब उसने परलोक में जानेका विचार किया । उसकी देहत्यागकी इच्छा देख नारदजीने आकर कहा—'देवि ! तुम्हारा तो अभी संस्कार (विवाह) ही नहीं हुआ है, फिर तुम्हें उत्तम लोक कैसे मिल सकते हैं ? यह बात मैंने देवलोकमें सुनी है । तुमने तपस्या तो बहुत बड़ी की, पर तुम्हें उत्तम लोकोंपर अधिकार नहीं प्राप्त हो सका ।'

नारदकी बात सुनकर वह ऋषियोंकी सभामें जाकर बोली—'जो कोई मेरा पाणिग्रहण करेगा, उसे मैं अपनी तपस्याका आधा भाग दे दूंगी ।' उसके ऐसा कहनेपर गालवके पुत्र शृङ्गवान्ने कहा—'कल्याणी ! मैं इस शर्तपर तुम्हारा पाणिग्रहण करूँगा कि विवाह हो जानेपर तुम एक रात मेरे साथ निवास करो ।'

वृद्धा कुमारीने 'हाँ' कहकर अपना हाथ मुनिके हाथमें दे दिया । गालवनन्दनने शास्त्रीय विधिके अनुसार हवन आदि करके उसका पाणिग्रहण संस्कार किया । रात्रिके समय वह सुन्दरी तरुणी बनकर मुनिके पास गयी । उस समय उसके शरीरपर दिव्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे । दिव्य हार तथा दिव्य अङ्गरागोंकी सुगन्ध फैल रही थी । उसकी छत्रसे चारों ओर प्रकाश-सा हो रहा था । उसे देखकर शृङ्गवान् ऋषिको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने एक रात उसके साथ निवास किया । सवेरा होते ही वह मुनिसे बोली—'विप्रवर ! आपने जो शर्त की थी, उसके अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी, अब आज्ञा दीजिये, मैं जाती हूँ ।'

यह कहकर वह वहाँसे चल दी । जाते-जाते उसने फिर कहा—'जो अपने चित्तको एकाग्र कर देवताओंको तृप्त करके इस तीर्थमें एक रात निवास करेगा, उसे अट्टावन वर्षोंतक ब्रह्मचर्य-पालन करनेका फल मिलेगा ।' ऐसा कहकर वह साध्वी देह त्यागकर स्वर्गमें चली गयी और मुनि उसके दिव्य रूपका चिन्तन करते हुए बहुत दुखी हो गये । उन्होंने प्रतिज्ञाके अनुसार उसके तप का आधा भाग ले लिया और उससे अपनेको सिद्ध बनाकर फिर उसीकी गति का अनुसरण किया । राजन् ! यही वृद्धकन्याका परिचय है, जो तुम्हें सुना दिया । बलरामजीने इसी तीर्थमें आने-पर शल्यकी मृत्युका समाचार सुना था । वहाँ भी उन्होंने श्राद्धणोंको बहुत कुछ दान किया । तत्पश्चात् समन्तपञ्चक द्वारसे निकलकर उन्होंने ऋषियोंसे कुरुक्षेत्र-सेवनका फल पूछा । तब उन महात्माओंने बलरामजीसे उस क्षेत्रके सेवनका ठीक-ठीक फल बताया ।

समन्तपञ्चकतीर्थ (कुरुक्षेत्र) की महिमा तथा नारदजीके कहनेसे बलदेवजीका भीम और दुर्योधनका युद्ध देखने जाना

ऋषियोंने कहा—बलरामजी ! समन्तपञ्चक क्षेत्र सनातन है, यह प्रजापतिको उत्तर वेदो कहलाता है । प्राचीन कालमें देवताओंने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया था तथा बुद्धिमान् महात्मा राजर्षि कुरुने पहले बहुत वर्षोंतक इस क्षेत्रकी जमीन जोती थी, इसलिये उन्हींके नामपर यह 'कुरुक्षेत्र' कहा जाने लगा ।

बलरामजीने पूछा—मुनिवरों ! महात्मा कुरुने इस क्षेत्रमें हल क्यों चलाया ?

ऋषियोंने कहा—बलरामजी ! पूर्वकालमें राजा कुरु जब यहाँ प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे, उन्हीं

दिनोंकी बात है, इन्द्रने स्वर्गसे आकर कुरुसे इसका कारण पूछा—'राजन् ! आप इतना बड़ा प्रयास क्यों कर रहे हैं ? यहाँकी जमीन जोतनेसे आपका क्या अभिप्राय है ?' कुरुने कहा—'इन्द्र ! जो लोग इस क्षेत्रमें मरेगे वे पुण्यवानोंके लोकमें जायेंगे ।'

यह जवाब सुनकर इन्द्रकों हँसी आ गयी । वे चुपचाप स्वर्ग लौट गये । इससे राजर्षि कुरुका उत्साह कम नहीं हुआ, वे वहाँकी जमीन जोतनेमें लगे ही रह गये । इन्द्रने कई बार आकर प्रश्न किया, किंतु वही उत्तर पाकर वे हर बार लौट गये । कुरुने भी कठोर तपस्याके साथ हल जोतना

आरम्भ किया। तब इन्द्रने उनका मनोभाव देवताओंसे बहू सुनाया। सुनकर देवता यों—'अगर सम्भव हो तो राजाजिको बरदान देकर राजी कर लीजिये। नहीं तो यदि वे अपने प्रयत्नमें सफल हो गये और मनुष्य यज्ञ किये बिना ही स्वर्गमें आने लगे तो हमसुगोंका यज्ञभाग नष्ट हो जायगा।'

तब इन्द्रने कुशके पास आकर कहा—'राजन्! अब आप बष्ट न उठाइये, मेरी बात मानिये; मैं बरदान देता हूँ कि जो मनुष्य अथवा पशु यहाँ निराहार रहकर या युद्धमें मारे जाकर शरीर त्याग करेंगे, वे स्वर्गके आधिकारी होंगे।' राजा कुशने 'बहुत अच्छा' कहकर इन्द्रकी आता स्वीकार की और इन्द्र भी राजाकी अनुमति से प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गकी चले गये।

बलरामजी! इस प्रकार शुभ उद्देशसे राजाजि कुशने इस क्षेत्रको जोता था। पृथ्वीपर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान नहीं है। जो मनुष्य यहाँ तप करेंगे, वे देहत्यागके परवातु ब्रह्मलोकमें जायेंगे। जो दान करेंगे उनका दिया हुआ हजार गुना होकर फल देगा। जो सदा यहाँ निवास करेंगे, उन्हें यमराजके राज्यमें नहीं जाना पड़ेगा। यदि राजा लोग यहाँ आकर बड़े-बड़े यज्ञ करें तो जबतक यह पृथ्वी कायम रहेगी तबतकके लिये उन्हें स्वर्गमें रहनेका तीर्थाग्य प्राप्त होगा। साक्षात् इन्द्रने भी कुशक्षेत्रके विषयमें यह उद्गार प्रकट किया है—'कुशक्षेत्रकी पूल भी यदि हवासे उड़कर किसी पानीके ऊपर पड़ जाय तो वह उसे उत्तम लोकमें पहुँचाती है। यहाँ बड़े-बड़े देवता, उत्तम ब्राह्मण तथा नृग आदि नरेश भी यत्र करके उत्तम गतिको प्राप्त हो चुके हैं। तन्मुक्तसे लंकर आन्तुक तक तथा रामहृदसे आरम्भ करके यमचक्र तकके बीचका जो स्थान है, वही कुशक्षेत्र एवं समन्तपञ्चक तीर्थ है। इसे प्रजापतिकी उत्तर वेदी भी कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र एवं कल्याणकारी है, देवताओंने भी इसका सम्मान किया है। यह सभी सद्गुणोंसे सम्पन्न है; अतः यहाँ मरे हुए सब कश्चित् अक्षय गतिको प्राप्त होंगे।' इस प्रकार साक्षात् इन्द्रने यह बात कही और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओंने इसका समर्थन किया था।

येशम्पायनजी कहते हैं—'तदनन्तर, कुशक्षेत्रका दृगं और यहाँ बहुत-सा दान करके बलरामजी एक दिव्य आयुष्मके निकट गये। यहाँ पहुँचकर उन्होंने भूनिधोसे पुछा—'यह युवद आश्रम किसका है?' तब उन्होंने कहा—'बलरामजी! पहले तो यहाँ भगवान् विष्णु तपस्या कर चुके हैं, फिर अक्षय फल देनेवाले कई यज्ञ भी इस आश्रमपर हुए हैं। शाल्यकालसे ही ब्रह्मचर्याका पातन करनेवाली एक

सिद्ध ब्राह्मणी भी यहाँ तपस्या कर चुकी है। वह शाण्डिल्य मुनिकी पुत्री थी।'

श्रद्धियोंको यात सुनकर बलभद्रजीने उन्हें प्रणाम किया और हिमाशयके समीप स्थित उत्त आश्रममें गये। यहाँके उत्तम तीर्थका तथा सरस्वतीके उद्गमभूत स्रोतका दृगंन करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद कारपयन तीर्थमें जाकर उन्होंने यहाँके स्वच्छ, शीतल एवं पवित्र जलमें डूबकर लगायी तथा देवताओं और पितरोंका तर्पण करके ब्राह्मणोंको दान दिया। फिर एक रात यहाँ निवास करके वे ब्राह्मणों और संन्यासियोंके साथ मित्रावरुणके पवित्र आश्रमपर गये। यह स्थान यमुनाके तटपर है। सर्वप्रथम उत्त स्थानपर आकर इन्द्र, अग्नि तथा अर्यमा बहुत प्रसन्न हुए थे। बलरामजी यहाँ स्नान-दान करके श्रद्धियों और सिद्धोंके साथ बैठकर उत्तम कथाएँ सुनने लगे।

उसी समय देवीव नारदजी दण्ड, कम्पण्डलु और भनोहर धोषा लिये यहाँ आ पहुँचे। उन्हें आते देख बलरामजी



उठकर खड़े हो गये और उनका विधिवत् पूजन करके उनसे कौरवोंका समाचार पूछने लगे। नारदजीने, जिस प्रकार कौरवोंका महत्संहार हुआ था, वह सब ज्यों-कान्यों सुना दिया। तब बलभद्रजीने दुःख प्रकट करते हुए कहा—'तपोधन! उस क्षेत्रकी क्या अवस्था है तथा यहाँ आये हुए राजाओंकी क्या दशा हुई है? यह सब संशोषके साथ मैं पहले

ही सुन चुका हूँ । अब मुझे वहाँका विस्तृत समाचार जाननेकी उत्कण्ठा हो रही है ।'

नारदजीने कहा—भीष्मजी तो पहले ही मारे गये । उनके बाद द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण और उसके पुत्र भी परलोक पहुँच गये । भूरिश्रवा, शल्य तथा दूसरे महाबली राजाओंकी भी यही दशा हुई है । ये सब राजा और राजकुमार दुर्योधनकी विजयके लिये अपने प्राणोंकी बलि दे चुके हैं । अब जो मरनेसे बचे हैं, उनके नाम सुनिये । दुर्योधनकी सेनामें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा—ये ही तीन प्रधान वीर बचे हुए हैं । किंतु जब शल्य मारे गये तो ये भी डरके मरने कायन कर गये । उस समय दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भागकर द्वैपायन सरोवरमें जा छिपा । मायासे सरोवरका पानी बाँधकर वह उसके भीतर सो रहा था, इतनेमें पाण्डवलोग भगवान् श्रीकृष्णके साथ वहाँ जा पहुँचे और उसे कड़वी बातें सुनाकर कण्ठ पहुँचाने लगे । वह भी बलवान् ही ठहरा, इनके ताने क्यों सहता ? हाथमें गदा लेकर उठ पड़ा और भीमसेनसे युद्ध करनेके लिये उनके पास जाकर खड़ा हो गया । अब उन दोनोंमें भयंकर युद्ध छिड़नेवाला है, यदि आप भी देखनेको उत्सुक हों तो शीघ्र

जाइये, विलम्ब न कीजिये । अपने दोनों शिष्योंका युद्ध देखिये ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—नारदजीकी बात सुनकर बलरामजीने अपने साथ आये हुए ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और सेवकोंको द्वारका चले जानेकी आज्ञा दी । फिर वे, जहाँ सरस्वतीका स्रोत निकला हुआ है, उस श्रेष्ठ पर्वतशिखरसे नीचे उतरे और तीर्थका महान् फल सुनकर ब्राह्मणोंके समीप उसकी महिमाका इस प्रकार वर्णन करने लगे—'सरस्वतीके तटपर निवास करनेमें जो सुख है, आनन्द है, वह अन्यत्र कहाँ मिल सकता है ? उसमें जो गुण हैं, वे और कहाँ हैं ? सरस्वतीका सेवन करके स्वर्गलोकमें पहुँचे हुए मनुष्य उसका सदा ही स्मरण करते रहेंगे । सरस्वती सब नदियोंमें पवित्र है, वह संसारका कल्याण करनेवाली है; सरस्वतीको पाकर मनुष्य इहलोक और परलोकमें पापोंके लिये शोक नहीं करते ।'

तदनन्तर, बारंबार सरस्वतीकी ओर देखते हुए बलरामजी सुन्दर रथपर सवार हुए और शिष्योंका युद्ध देखनेके लिये तेज चालसे चलकर द्वैपायन सरोवरके तटपर जा पहुँचे ।

बलरामजीकी सलाहसे सबका समन्तपञ्चकमें जाना तथा वहाँ भीम और दुर्योधनमें गदायुद्धका आरम्भ

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजा जनमेजय ! इस प्रकार होनेवाले उस तुमुल युद्धकी बात सुनकर धृतराष्ट्रको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने सञ्जयसे पूछा—'सूत ! गदा-युद्धके समय बलरामजीको उपस्थित देख मेरे पुत्रने भीमसेनके साथ किस प्रकार युद्ध किया ?'

सञ्जयने कहा—महाराज ! बलरामजीको वहाँ उपस्थित देख दुर्योधनको बड़ी खुशी हुई । राजा युधिष्ठिर तो उन्हें देखते ही खड़े हो गये और बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका पूजन करके बैठनेको आसन दे कुशल-समाचार पूछने लगे । तब बलरामजीने उनसे कहा—'राजन् ! मैंने ऋषियोंके मुँहसे सुना है कि कुरुक्षेत्र बड़ा पवित्र तीर्थ है, वह स्वर्ग प्रदान करनेवाला है, देवता, ऋषि तथा महात्मा ब्राह्मण सदा उसका सेवन करते हैं, वहाँ युद्ध करके प्राण त्यागनेवाले मनुष्य निश्चय ही स्वर्गमें इन्द्रके साथ निवास करेंगे । इसलिये हमलोग यहाँसे समन्तपञ्चक क्षेत्रमें चलें, वह देवलोकमें प्रजापतिकी उत्तर वेदीके नामसे विख्यात है । वह त्रिभुवनका

अत्यन्त पवित्र एवं सनातन तीर्थ है, वहाँ युद्ध करनेसे जिसकी मृत्यु होगी, वह अवश्य ही स्वर्गलोकमें जायगा ।'

'बहुत अच्छा' कहकर युधिष्ठिरने बलरामजीकी आज्ञा स्वीकार की और वे समन्तपञ्चक क्षेत्रकी ओर चल दिये । राजा दुर्योधन भी हाथमें बहुत बड़ी गदा ले पाण्डवोंके साथ पैदल ही चला । उस समय शङ्खनाद होने लगा, भेरियाँ बज उठीं और शूरवीरोंके सिंहनादसे सम्पूर्ण दिशाएँ भर गयीं । तत्पश्चात् वे सब लोग कुरुक्षेत्रकी सीमामें आये, फिर पश्चिमकी ओर आगे बढ़कर सरस्वतीके दक्षिण किनारे पर स्थित एक उत्तम तीर्थमें पहुँचे । वही स्थान उन्हें युद्धके लिये पसंद आया ।

फिर तो भीमसेन कवच पहनकर हाथमें बड़ी नोकवाली गदा ले युद्धके लिये तैयार हो गये । दुर्योधन भी सिरपर टोप लगाये सीनेका कवच बाँधे भीमके सामने उट गया । फिर दोनों भाई क्रोधमें भरकर एक दूसरेको देखने लगे । दुर्योधन की आँखें लाल हो रही थीं । उसने भीमसेनकी ओर देखकर

अपनी गदा संभाली और उन्हें सतकारा। भोमने भी गदा ऊँची करके दुर्योधनको सतकारा। दोनों ही श्रेष्ठमें भरे थे। दोनोंही गदाएँ ऊपरकी उठी थीं और दोनों ही भयंकर



पराक्रम दिखानेवाले थे। उस समय वे राम-रावण और जानि-मुघोषके समान जान पड़ते थे।

तदनन्तर, दुर्योधनने बैरव्य, मञ्जव्य और पाण्डवानों तथा धौहृष्ण, बनराम एवं अपने भाइयोंके साथ सड़े हुए युधिष्ठिरने कहा—'मित्र भोमसेनके साथ जो युद्ध ठहरा हुआ है, उसके आन सब लोग पास ही बँटकर देखिये।' दुर्योधन-कों इस रायको सबसे पसंद किया। फिर सब लोग बँट गये। चारों ओर राजाओंकी मण्डलियाँ बँधी और बीचमें भगवान् बलरामजी विराजमान हुए; क्योंकि सब लोग उनका सम्मान करते थे।

वंशम्पायनजी कहते हैं—यह प्रसंग सुनकर धृतराष्ट्रको बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने सञ्जयने कहा—'भूत ! जिसका परिणाम इतना दुःखद होता है, उस मानव-जन्मको धिक्कार है ! मेरा पुत्र ग्यारह अर्सीहिगो सेनाका मानिक था, उनसे सब राजाओंपर दृष्टम चलताया, सारी पृथ्वीका अकेले उपभोग किया, किन्तु अन्तमें यह हावन हुई कि गदा हाथमें लेकर उसे बंदल हो दूधमें जाना पड़ा ! इसे प्रारब्धके सिवा और क्या कहा जा सकता है ?'

सञ्जयने कहा—महाराज ! आपके पुत्रने जबके समान गदेंना करके जब भीमको युद्धके लिये लम्बकारा, उस समय अनेकों भयंकर उद्वेग होते लगे। बिजयोंकी गड़गड़ाहटके साथ आंधी चलने लगी। धूमकी कवाँ झूफ ही गयी और चारों दिशाओंमें भयंकार छा गया। आकाशमें संकड़ों जलवाँ टूट-टूटकर गिरने लगीं। बिना अनामक-के हीं भूधर घटन लग गया। बूझों तथा अनेकें साथ धरती डोलने लगी। पर्वतोंके गिरार टूट-टूटकर जमीनपर पड़ने लगे। बुझोंके पानीमें बाढ़ आ गयी। हिमोंका गरीर नहीं दिगामो देना तो भी देहधारीकी-मी आगके मुनासों पड़नी थी।

इन सब अनाहुनोंको देखकर भोमसेनने धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—'मित्र ! आपके हृदयमें जो बाँटा कमरता रहता है, उसे आज निरान फेंकेंगा। इस पानीकी गदाने मारकर इसके गरीरके टुकड़े-टुकड़े कर झाँपूंगा। अब यह पुनः हस्तिनापुरमें नहीं प्रवेश करने पायेगा। इस दुष्टने मेरे विद्योनेपर सैन छोड़ा, भोजनमें विष मिलाया, प्रमाणकोटिमें ले जाकर मुझे पानीमें गिरवाया, साक्षात्भवनमें जनानेका प्रयत्न किया, समामें हँसी उड़ाया, हमनोगोंका मन्व्य छाँता तथा इसीके कारण हमें वनवास एव अज्ञानवासका बन्ध भोगना पड़ा। आज सबका बदला चुकाकर मैं उन दुःखोंसे छुटकारा पा जाऊँगा। इसे मारकर अपने अन्त्याका रूप चुकाऊँगा। इस दुष्टको प्रायः पूरी हो गयी है। अब इसे माना-पिताका दंगन भी नहीं मिलेगा। आज यह कुतर्कक अपने राज्य, सभामें तथा प्राणोंमें हाथ धोकर सदाके लिये जमीनपर सो जायगा।'

यह कहकर महापराक्रमी भीमसेन गदा ले युद्धके लिये इट गये और दुर्योधनको पुकारने लगे। दुर्योधनने भी गदा ऊँची की, यह देता भीमसेन पुनः श्रेष्ठमें भरकर बोने—'दुर्योधन ! आरणावतमें राजा धृतराष्ट्रने और तूने जो पाप किये थे, उन्हें आज याद कर ले। तूने भरी समामें राजबना श्रेष्ठोंको जो कनश पहुंचाया, जूएके समय तूने और शत्रुने मिलकर जो राजा युधिष्ठिरके साथ बध्चन्ता की—उन सबका बदला चुकाऊँगा। लुशोंकी बात है कि आज तू लकने विलायी दे रहा है। मेरे ही कारण पितामह भीष्म, अर्जुन श्रेष्ठ, कर्ण तथा शल्य-जैसे वीर मारे गये। तेरे भई हवा और भी बहुत-से क्षत्रिय यमलोक पहुँच गये। तूने एवं वंदरकी आग लगानेवाला शत्रुनि और श्रेष्ठोंको दुःख पहुँचाया प्रातिकामी भी चल वसा, अब तू ही यह तुम्हें भी इस गदामें मोतके घाट सदेह नहीं है।'

गजन् ! भीमसेनने ये शानें बड़े जोरसे कही थीं, इन्हें मुनकर आपके पुत्रने बोधयुक्त जवाब दिया—'बृकोदर ! इनकी श्रेष्ठी बघारनेसे क्या होगा ? चुपचाप नट्टाई कर, आज तेरा युद्धका सागा हीमना मिटायें देना है । दुर्योधनको तू दूबरे साधारण लौगीक मयान मन समझ, यह तेरे-जैसे किसी भी मनुष्यकी धमकीसे नहीं डरता । मैं तो इसे मोनाय्य समझता हूँ, मेरे मनमें बहूत दिनोंसे यह इच्छा थी कि तेरे साथ गदायुद्ध होता, तो आज श्रेयताश्रनि उसे पूर्ण कर दिया । अब बहुत बड़बट्टानिसे कोई जान नहीं है, पराक्रमके द्वारा अपनी बाणीकी सत्य करके दिखा; विलम्ब न कर ।'

दुर्योधनकी बात सुनकर सबने उसकी प्रशंसा की और भीमसेन गदा उठाकर बड़े वेगसे उसकी ओर बोड़े । दुर्योधनने भी गर्जना करते हुए आगे बढ़कर उनका सामना किया । फिर दोनों दो साँड़ोंकी तरह एक-दूसरेसे मिड़ गये । प्रहार-पर-प्रहार होने लगा । उस समय गदाकी चोट पट्टेपर अक्षपातके समान भयंकर आवाज होती थी । दोनों खूनमें नहा उठे । उनके रक्तरेचिजत शरीर खिले हुए टाकके वृक्षों-जैसे दिखायी देने लगे । लड़ते-लड़ते दोनों ही थक गये, फिर दोनोंने घड़ीभर विश्राम किया । इसके बाद दोनों ही अपनी-अपनी गदाएँ उठाकर आपसमें युद्ध करने लगे ।

भीम और दुर्योधनका भयंकर गदायुद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! उन दोनों भाइयोंमें जब पुनः मिट्टेन हृद्द ना दोनों ही दोनोंके चक्रकेका अचमर देखने हुए पतरे बदलने लगे । दोनोंकी गदाएँ यमदण्ड और अक्षके समान भयंकर दिखायी देती थीं । भीमसेन जब अपनी गदाको घुमाकर प्रहार करते, उस समय उसकी भयंकर आवाज एक सहस्रतक गूँजती रहती थी । यह देखकर दुर्योधनको बड़ा विस्मय होता था । नाना प्रकारके पतरे दिखाकर चारों ओर चक्कर लगाते हुए भीमसेनकी उस समय अपूर्व मोभा ही रही थी ।

दोनों एक-दूसरेसे मिड़कर अपनी-अपनी बचावका प्रयत्न करने थे । तरह-तरहके पतरे बदलना, चक्कर देना, गद्दपर प्रहार करना, उसके प्रहारको बचाना या रोकना तथा आगे बढ़कर पीछे हटना, वेगसे शत्रुपर घायाँ करना, उसके प्रयत्नको निष्फल कर देना, सावधानीपूर्वक एक स्थानपर खड़ा होना, सामने आते ही शत्रुसे युद्ध छेड़ना, प्रहारके लिये चारों ओर घूमना, शत्रुको घूमनेसे रोकना, नीचेमें कूदकर गद्दका धार बचाना, तिरछी गतिसे उछलकर प्रहारमें बचना, पास जाकर और दूर हटकर शत्रुके ऊपर प्रहार करना—इत्यादि बहुत-सी क्रियाएँ दिखाते हुए दोनों लड़ रहे थे । दोनों ही प्रहार करते हुए एक-दूसरेकी चक्रमा देनेकी कोशिश करते थे । युद्धका खेन दिखाते हुए सहसा गदाशोंकी चोट कर बँधते थे । इन प्रकार उनमें दण्ड और पद्मामुरकी भाँति भयंकर युद्ध चल रहा था । दोनों ही

अपने-अपने मण्डलमें खड़े थे । दाएँ मण्डलमें दुर्योधन था और बाएँमें भीमसेन । उस समय दुर्योधनने भीमसेनकी पक्षीमें गदा मारी, परंतु भीमसेनने उसके प्रहारको कुछ भी न गिनकर यमदण्डके समान भयंकर गदा घुमायी और उसे दुर्योधनपर दे मारा । यह देख दुर्योधनने भी अपनी भयंकर गदा उठाकर पुनः भीमसेनपर प्रहार किया । गदा प्रहार करते समय बड़े जोरका शब्द होता और आगकी चिनगारियाँ छूटने लगती थीं ।

दुर्योधन भी अपने युद्ध-कोशलका परिव्रय देता हुआ भीमसेनसे अधिक शोभा पाने लगा । भीमसेन भी बड़े वेगसे गदा घुमाने लगे । इतनेहीमें आपका पुत्र दुर्योधन युद्धके फई पतरे दिखाता हुआ भीमपर टूट पड़ा । भीमने भी क्रोधमें भरकर उसकी गदापर ही आघात किया । दोनों गदाओंके टकरानेसे मयानक आवाज हुई, चिनगारियाँ छूटने लगीं । भीमसेनने बड़े वेगसे गदा छोड़ी थी, वह ज्यों ही नीचे गिरी, वहाँकी धरती काँप उठी । यह देख दुर्योधनने भीमसेनके मस्तकपर गदाका प्रहार किया किंतु भीमसेन तनिक भी घबराये नहीं—यह एक अद्भुत बात थी ।

तत्पश्चात् भीमसेनने भी आपके पुत्रपर अपनी बड़ी भारी गदा चलायी, किंतु दुर्योधन फुत्तसे इधर-उधर होकर उस प्रहारको बचा गया । इससे लोगोंकी बड़ा आश्चर्य हुआ । अब उसने भीमसेनकी छातीपर गदा मारी, उसकी



घोड़से भीमको मूँछा आ गयी और एक क्षणतक उन्हें अपने कर्तव्यका ज्ञानतक न रहा। किन्तु घोड़े ही डेरमें उगहोने अपनेको संभाल लिया और दुर्योधनकी पसलोंमें बड़े जोरसे गदा भारी। उस प्रहारसे ध्याकुल हो आपका पुत्र जमोइनपर घुटने टँककर बैठ गया। उसे इस अवस्थामें देखकर सृञ्जयनि ह्यंघ्वनि की। तब दुर्योधन शोयसे जल उठा और महान् संपत्की भाँति कुंठारें भरने लगा। उसने भीमसेनकी ओर इस तरह देखा, मानो उन्हें भस्म कर डालेगा। उनकी लोपड़ी कुचल डालनेके लिये वह हाथमें गदा लिये उनकी ओर चौड़ा। पास पहुँचकर उताने भीमके सलाहपर गदाका आघात किया। किन्तु भीम पर्वतके समान अचंचल भावसे लड़े रहे, इस प्रहारका उनपर कोई असर नहीं हुआ।

तदनन्तर, उन्होंने भी दुर्योधनके ऊपर अपनी लोहमयी गदाका प्रहार किया। उसकी चोटसे आपके पुत्रको नश-नश होली हो गयी। यह काँपता हुआ पुत्रोपर जा पड़ा। यह देल पाण्डव हृदयमें भरकर सिहनास करने लगे। कुछ ही डेरमें जब दुर्योधनको होगा हुआ तो वह उडतकर लड़ा हो गया और एक सुमिश्रित घोड़ारो भाँति रणभूमिमें विचरने लगा। घूमते-घूमते मौका पाकर उसने सामने लड़े हुए भीमसेनको गदामें मारा। उसकी चोट पाकर उनका सारा शरीर गिथिल हो गया और वे धरती घूमने लगे। भीमको

गिराकर दुर्योधन बहाड़ने लगा। उसकी गदामें आघातसे भीमके कंधामें घिपड़े उड़ गये थे। उनकी ऐसी अवस्था देख पाण्डवोंको बड़ा भय हुआ। किन्तु एक ही मूत्रमें भीमकी घेतना पुनः लौट आयी। उन्होंने लूतते भीगे हुए अपने मुण्डको पोंछा और धँध धारण करके अग्नि खोली। फिर अन्नपूर्वक अपनेको संभालकर वे लड़े हो गये।

उन दोनोंके युद्धको बहुत देर अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा—'जनादेव! इन दोनों घोरोंमें आप किसको बड़ा मानते हैं; किसमें कौन-सा गुण अधिक है? यह मुझे बताइये।' भगवान् बोले—'शिक्षा तो इन दोनोंको एक-सी मिली है, किन्तु भीमसेन बलमें अधिक हैं और अम्यास तथा प्रयत्नमें दुर्योधन बड़ा-बड़ा है। यदि भीमसेन धर्मपूर्वक युद्ध करेंगे तो नहीं जीत सकते; इन्होंने जूएके समय यह प्रतिज्ञा की है कि 'मैं युद्धमें गदा भारकर दुर्योधनको जीते तोड़ डालूँगा।' आज ये उस प्रतिज्ञाका पालन करें।



अर्जुन! मैं फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि धर्मराजके कारण हमसंगोपर पुनः भय आ पहुँचा है। बहुत प्रयात करके भीम आदि कौरव घोरोंको मारकर हमें विजय और यशस्वी प्रशस्ति हुई थी, किन्तु घृषिाँटने जग विजयको फिरसे संदेहमें डाल दिया है। एकरी ही हार-जीतमे सबकी हार-जीतकी शक्त लगाकर इन्होंने जो इस भयंकर युद्धको जूएका रीव बना डाला, यह इनकी कर्

भारी मूर्खता है। दुर्योधन युद्धकी कला जानता है, वीर है और एक निश्चयपर डटा हुआ है। इस विषयमें शुकाचार्यका कहा हुआ एक श्लोक सुननेमें आता है, जिसमें नीतिका तत्त्व भरा है, में उसका भावार्थ तुम्हें सुना रहा हूँ—'युद्धमें मरनेसे बचे हुए शत्रु यदि प्राण बचानेके लिये भाग जायें और फिर युद्धके लिये लीटें तो उनसे डरते रहना चाहिये; क्योंकि वे एक निश्चयपर पहुँचे हुए होते हैं। (उस समय वे मृत्युसे भी नहीं डरते) जो जीवनकी आशा छोड़कर साहस-

पूर्वक युद्धमें कूद पड़ें, उनके सामने इन्द्र भी नहीं ठहर सकते।' दुर्योधनकी सेना मारी गयी थी, वह परास्त हो गया था और अब राज्य मिलनेकी आशा न होनेके कारण वह वनमें चला जाना चाहता था, इसीलिये भागकर पोखरेमें छिपा था। ऐसे हताश शत्रुको कौन बुद्धिमान् दृग्ध युद्धके लिये आमन्त्रित करेगा? अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि कहीं दुर्योधन हमलोगोंके जीते हुए राज्यको फिर न हथिया ले।'

भीमके प्रहारसे दुर्योधनकी जंघाओंका टूटना, भीमद्वारा दुर्योधनका तिरस्कार और युधिष्ठिरका विलाप

सञ्जय कहते हैं—भगवान् श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर अर्जुन भीमसेनके देखते-देखते अपनी बायीं जंघा ठोकने लगे। भीमने उनका संकेत समझ लिया। फिर वे गदा लिये अनेकों प्रकारके पँतरे बदलते हुए रणभूमिमें विचरने लगे। उस समय शत्रुको चकमा देनेके लिये वे दायें-बायें तथा वक्रगतिसे घूम रहे थे। इसी तरह आपका पुत्र भी भीमको मार डालनेकी इच्छासे बड़ी फुर्तीके साथ तरह-तरहकी चालें दिखा रहा था। दोनों ही चन्दन और अगरसे चर्चित हुई अपनी भयंकर गदाएँ घुमाते हुए आपसके चरका अन्त कर डालना चाहते थे। जब उनकी गदाएँ टकरातीं तो आगकी लपटें निकलने लगती थीं और उनसे वज्रपातके समान भयंकर आवाज होती थी। लड़ते-लड़ते जब थक जाते तो दोनों ही घड़ीभर विश्राम करते और फिर गदा उठाकर एक-दूसरेसे भिड़ जाते थे।

गदाके भयंकर प्रहारसे दोनोंके शरीर जर्जर हो रहे थे, दोनों ही खूनमें लथपथ थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो हिमालयपर ढाकके दो वृक्ष फूले हुए हों। अर्जुनने भीमको जो इशारा किया, उसे दुर्योधन भी कुछ-कुछ समझ गया था; इसलिये वह सहसा उनके पाससे दूर हट गया। जब वह निकट था, उसी समय भीमने बड़े वेगसे उसपर गदा चलायी; किन्तु वह अपने स्थानसे एकाएक हट गया, इसलिये गदा उसे न लगकर जमीनपर जा पड़ी। इस प्रकार उनके प्रहारको बचाकर दुर्योधनने भीमपर स्वयं गदाका वार किया। भीमसेनको गहरी चोट लगी। उनके शरीरसे खूनकी धारा बह चली और वे मूर्च्छित-से हो गये। किन्तु दुर्योधनको उनकी मूर्च्छाका पता न चला; क्योंकि भीम अत्यन्त वेदना सहकर भी अपने शरीरको संभाले हुए थे। दुर्योधनने यही

समझा कि अब भीमसेन प्रहार करेंगे, इसीलिये उसने उनके ऊपर पुनः प्रहार नहीं किया, वह अपने वचावकी फिरमें पड़ गया।

थोड़ी ही देरमें जब भीमसेन पूरी तरह संभल गये तो उन्होंने दुर्योधनपर बड़े वेगसे आक्रमण किया। उन्हें क्रोधमें भरकर आते देख दुर्योधनने पुनः उनके प्रहारको व्यर्थ करनेका विचार किया और अवस्थान नामक दाँव खेल भीमको धोखेमें डालनेके लिये ऊपर उछल जाना चाहा। भीमसेन उसका मनोभाव ताड़ गये थे; इसलिये सिंहके समान गर्जना करके उसके ऊपर टूट पड़े। अब वह कूदना ही चाहता था कि भीमने उसकी जाँघोंपर बड़े वेगसे गदा मारी। उस वज्र-सरीखी गदाने आपके पुत्रकी दोनों जाँघें तोड़ डालीं और वह आर्तनाद करता हुआ जमीनपर गिर पड़ा।

जो एक दिन सम्पूर्ण राजाओंका राजा था, उस वीरवर दुर्योधनके गिरते ही बड़े जोरकी आँधी चली, बिजली कौंधने लगी। धूलकी वर्षा शुरू हो गयी तथा वृक्षों और पर्वतोंसहित सारी पृथ्वी काँप उठी। धूलके साथ रक्तकी भी वर्षा होने लगी। आकाशमें यक्षों, राक्षसों तथा पिशाचोंका कोलाहल सुनायी देने लगा। ब्रह्म-से हाथ-पँरोंवाले भयंकर कवन्ध नाचने लगे। कुओं और तालाबोंमें खून उफनाने लगा। नदियाँ अपने उद्गमकी ओर बहने लगीं। स्त्रियोंमें पुण्ड्रोंका और पुरुषोंमें स्त्रियोंका-सा भाव आ गया। इस तरह नाना प्रकारके अद्भुत उत्पात दिखायी देने लगे। देवता, गन्धर्व, अप्सराएँ, सिद्ध तथा चारण लोग आपके दोनों पुत्रोंके अद्भुत संग्रामकी चर्चा करते हुए जहाँसे आये थे वहाँ चले गये।

सञ्जय कहते हैं—महाराज! आपके पुत्रको इस प्रकार भूमिपर पड़ा देख पाण्डवों तथा सोमकोंको बड़ी प्रसन्नता

हुई । तदनन्तर, प्रतापी भीमसेन दुर्योधनके पास जाकर बोले—'भरे मूर्ख ! पहले भरी साममें तुने जो एकवस्त्रा द्रौपदीकी हँसी उड़ायी थी और हमसोनोंको धँस बहकर अपमानित किया था, उस जपहासका फल आज भोग से ।' यों बहकर उन्होंने धार्ये परते दुर्योधनके मुकुटको टकरा दिया और उसके सिरको भी परमे दबाकर रगड़ डाला । इसके बाद जो कुछ कहा, वह भी मुनिये—'हमसोनोंके सबअंगोंको दवानेके लिये छल-कपटसे काम नहीं लिया, आगमें जसानेकी कोशिश नहीं की, न जूआ खेला, न और कोई धोला-घड़ो की; केवल अपने बाहुबलके भरसे दुरमनोंको पछाड़ा है ।' ऐसा कहकर भीमसेन धूम हँसे; फिर युधिष्ठिर, भीष्मण, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सूत्रजयबोरसे घीरे-घीरे बोले—'आयुष्य देवते हैं न ? जो राजस्वला-अयस्यामें द्रौपदीको समाके भीतर धसीठ साथे थे और जिन्होंने उसे नंगी करनेका प्रयत्न किया था, वे घृतराष्ट्रके सभी पुत्र पाण्ड्योंके हाथसे मारे गये । यह द्वपदकुमारीकी तपस्याका फल है । जिन्होंने हमें तैलहोन तिलके समान सारहीन एवं नपुंसक कहा था, उन सबको सेवकों तथा सम्बन्धिपोंसहित मौतके घाट उतार दिया गया ।'



इसके बाद भीमने दुर्योधनके कंधेपर रखी हुई गदा से लो और उसे कपटो बहकर धुनः उसके मस्तकको अपने धार्ये परसे दबाया । किंतु उनके इस कर्तायिको धर्मत्मा होमकोंने पसंद नहीं किया । उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने भी उनसे कहा—'भैया भीम ! तुमने अपने धरका बदला से लिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गयी; अब तो शान्त हो जाओ । दुर्योधनके मस्तकको परसे न टुकराओ, धर्मका जलसुन न करो । एक दिन यह ग्यारह अश्रीहिणी सेनाका स्वामी था, कीरधौंका राजा था और अपना कुटुम्बो रहा है; अतः परसे इसका स्पर्स नहीं करना चाहिये । इसके भाई और मन्त्री मारे गये, सेना भी नष्ट हो गयी और स्वयं भी युद्धमें मारा गया; अतः यह सब प्रकारसे शोचनीय है, बपाका पात्र है, इसको हँसी नहीं उड़ानी चाहिये । सोचो तो, इसकी संतानें नष्ट हो गयीं; अब इसे पिण्ड देनेवाला भी कोई न रहा । इसके लिये अपना भाई ही तो है, क्या इसके साथ यही कर्ताय उचित था ? इसे परसे टकराकर तुमने ग्याय नहीं किया है । भीमसेन ! तुम्हें तो सोग धार्मिक धताते हैं, फिर तुम क्यों राजाका अपमान करते हो ?'

भीमसेनसे ऐसा बहकर युधिष्ठिर दुर्योधनके निकट गये और चतुर-दुर प्रकट करते हुए गद्गद कन्ठसे बोले—'सात !

तुम हमसोनोंपर श्रेय न करना, अपने लिये भी शोक न करना; क्योंकि सब प्राणियोंको अपने पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोंका ही भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है । तुमने अपने ही अपराधसे इतना बड़ा संकट मोल लिया है । शोक मह और मूर्खताके कारण मित्रों, भाइयों, चाचाओं, पुत्रों तथा पौत्रोंको मरवाकर अन्तमें तुम स्वयं भी मौतके कुलमें जा पड़े । तुम्हारे ही अपराधसे हमें तुम्हारे महारथी भाइयों तथा अन्य कुटुम्बियोंका वध करना पड़ा है । वास्तवमें प्रारब्धको कोई ढाल नहीं सकता । भैया ! तुम्हें अपने आत्माके कल्याणके विषयमें शोक नहीं करना चाहिये; तुम्हारी मृत्यु इतनी उत्तम हुई है, जिसकी दूसरे सोग इच्छा करते हैं । इस समय तो हम ही सोग सब तरहसे शोकके धोव्य हो गये; क्योंकि अब हमें अपने प्यारे कन्धुओंके विवोगमें बड़े-दुःखके साथ जीवन बिताना होगा । जब भाइयों, पुत्रों और पौत्रोंकी विधवा स्त्रियाँ शोकसे डूबी हुई हमारे सामने आयेंगी, उस समय हम बंसे उनकी ओर देख सकेंगे ? राजन् ! तुमने तो अपने स्वर्गकी राह ली है, निरचय ही तुम्हें स्वर्गमें स्थान मिलेगा ।'

यह बहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर शोकसे आतुर हो गये और लंबो-लंबी सर्तमें भरते हुए देरतक विलाप करते रहे ।

क्रोधमें भरे हुए बलरामको श्रीकृष्णका समझाना और युधिष्ठिरके साथ श्रीकृष्णकी तथा भीमसेनकी बातचीत

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब राजा दुर्योधन अधर्मपूर्वक मारा गया, उस समय बलभद्रजीने क्या कहा ? ये तो गदायुद्धके गिरोपज्ञ हैं, यह अन्याय देखकर चुप न रहे होंगे; अतः उन्होंने यदि कुछ किया हो तो बताओ ।

सञ्जयने कहा—महाराज ! भीमसेनने आपको पुत्रकी जाँघोंमें प्रहार किया—यह देख महाबली बलरामजीको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने सब राजाओंके बीच अपना हाथ ऊपर उठाकर भयंकर आर्तनाद करते हुए कहा—“भीमसेन ! तुम्हें धिक्कार है ! धिक्कार है ! ! बड़े अफसोसकी बात है कि इस धर्मयुद्धमें भी नाभिसे नीचेके अङ्गमें गदाया प्रहार किया गया । आज भीमने जैसा अन्याय किया है, यह गदायुद्धमें पहले कभी नहीं देखा गया । शास्त्रने यह निर्णय कर दिया है कि ‘गदायुद्धमें नाभिसे नीचे नहीं प्रहार करना चाहिये ।’ किन्तु यह तो भूल है, शास्त्रको बिल्कुल नहीं जानता, इसीलिये मनमाना बर्ताव करता है ।”

इसके बाद उन्होंने दुर्योधनकी ओर दृष्टिपात किया, उसकी वशा देख उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं; वे फिर कहने लगे—‘कृष्ण ! दुर्योधन मेरे सम्मान बलवान् है,



इसकी समानता करनेवाला कोई मोढ़ा नहीं है । आज अन्याय करके केवल दुर्योधन ही नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है । शरणागतकी दुर्बलता देखकर शरण देनेवालेका तिरस्कार किया जा रहा है !’ यह कहकर वे अपना हल ऊपरकी उठाये भीमसेनकी ओर दौड़े । यह देख श्रीकृष्णने बड़ी चिन्तनी और घड़े प्रयत्नके साथ अपनी दोनों भुजाओंसे बलरामजीको पकड़ लिया और उन्हें शान्त करते हुए कहा—“भैया ! अपनी उन्नति छः प्रकारकी होती है—अपनी वृद्धि और शत्रुकी हानि, अपने मित्रकी वृद्धि और शत्रुके मित्रकी हानि तथा अपने मित्रके मित्रकी वृद्धि और शत्रुके मित्रके मित्रकी हानि । अपने या मित्रको जब विपरीत वशा आ घेरती है, तो मनमें ग्लानि होती है ही । आप जानते हैं पाण्डव हमलोगोंके स्वामायिक मित्र हैं; ये विशुद्ध पुरुषार्थका भरोसा रखनेवाले हैं, बुआके लड़के होनेके कारण हर तरहसे अपने हैं । शत्रुओंने कपटपूर्ण, बर्ताव करके पहले इन्हें बहुत कष्ट पहुँचाया है । सभाभवनमें भीमने यह प्रतिज्ञा की थी कि ‘मैं अपनी गदासे दुर्योधनकी जाँघें तोड़ डालूँगा ।’ प्रतिज्ञा-पालन क्षत्रियके लिये धर्म है और भीमने उसीका पालन किया है । महर्षि मंत्रेयने भी दुर्योधनको यह शाप दिया था कि ‘भीम अपनी गदासे तेरी जाँघें तोड़ डालेगा ।’ इस प्रकार यही होनहार थी, मैं भीमका इसमें कोई दोष नहीं देखता । इसलिये आप अपना क्रोध शान्त कीजिये । बुआ और बहनके नाते पाण्डवोंके साथ हमलोगोंका यौन सम्बन्ध भी है; मित्र तो ये हैं ही । अतः इनकी उन्नतिमें ही हमलोगोंकी भी उन्नति है । इसलिये अब आप क्रोध न कीजिये ।’

श्रीकृष्णकी बात सुनकर धर्मको जाननेवाले बलदेवजीने कहा—‘सत्वुरूपोंने धर्मका अच्छी तरह आचरण किया है, किन्तु यह अर्थ और काम—इन दो वस्तुओंसे संकुचित हो जाता है । अत्यन्त लोभीका अर्थ और अधिक आसक्ति रखनेवालेका काम—ये दोनों ही धर्मको हानि पहुँचाते हैं । जो मनुष्य कामसे धर्म और अर्थको, अर्थसे धर्म और कामको तथा धर्मसे काम और अर्थको हानि न पहुँचाकर धर्म, अर्थ तथा काम—इन तीनोंका सेवन करता है, यही अत्यन्त सुखका भागी होता है । भीमसेनने तो धर्मको हानि पहुँचाकर इन सबको विकृत कर डाला है ।’

श्रीकृष्णने कहा—भैया ! संसारके सब लोग आपको

श्रीधरहित और धर्मात्मा मममने हैं; द्रुपदसिपे शान्त हो जाइये, द्रोघ न कीजिये। समस्त मौजिये कि कतिवृग आ गया। भीमकी प्रतिज्ञाको भी भुला न कीजिये। पाण्डवोंको घेर और प्रतिज्ञाके श्रुणते धुनन होने कीजिये।

सञ्जय कहते हैं—श्रीकृष्णकी बात सुनकर धतदेवजीकी बहुत संतोष नहीं हुआ, उरुने राजाओंकी सभामें फिरसे कहा—‘धर्मात्मा राजा दुर्गोधनको अधमपूर्वक मारनेके कारण भीमसेन संसारमें कपटपूर्ण युद्ध करनेवाला कह जायगा। दुर्गोधन मरलतासे युद्ध कर रहा था, उस अवस्थामें यह मारा गया है; अतः यह सनतान सदागतिको प्राप्त करेगा।’ यह कहकर रोहिणीनन्दन बनरामजी द्वारकाकी ओर घत दिये। उनके घले जानेसे पाञ्चाल, युधिष्ठिर तथा पाण्डव घोर उदाम हो गये। युधिष्ठिर भी बहुत दुःखी थे, वे नाँवे मूंह जिपे त्रिनाम मग्न हो रहे थे; उस समय भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—‘धर्मराज ! आप धुप होकर अधमका अनुमोदन क्यों कर रहे हैं ? दुर्गोधनके भाई और सहायक मर चुके हैं, बेचारा येटोस होकर गिरा हुआ है; ऐसी दशामें भीम इसके मस्तकको परोसि ठुकरा रहे हैं और आप धर्मज्ञ होकर धुपघ्राय तमाशा देजते हैं ! क्यों ऐसा हो रहा है ?’

युधिष्ठिरने कहा—कृष्ण ! भीमसेनने वीधमे भरकर जो इसके मस्तकको परोसि ठुकराया है, यह मुझे भी अच्छा नहीं लगा है। अपने कुलका संहार हो जानेसे मैं रूसा नहीं

हूँ। कितु क्या करूँ ? धृतराष्ट्रके पुत्रोंने सदा ही हमें अपने कपट-आत्मका शिकार बनाया, कटु घबन मुनाये और मनवास दिया; भीमसेनके हृदयमें इन सब बातोंके सिधे यज्ञ बुन्य था, यही भीमराज मीने उनके इस कामको उदेना की है।

धर्मराजके ऐसे कहनेपर श्रीकृष्णने बड़े कष्टने कहा—‘अच्छा, ऐसा ही सही।’ राजन् ! आपके पुत्रको मारकर भीमसेन बहुत प्रमत्त हुए थे। उरुने युधिष्ठिरके सामने पड़े ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विजयोःत्तमके साथ, कहा—‘महाराज ! आज यह साम्पूर्ण पृथ्वी आपकी हो गयी, इसके काँटे दूर हुए और यह मङ्गलमयी हो गयी। अब आप अपने धर्मका पालन करने हुए इसका शासन कीजिये। कपटसे प्रेम करनेवाले जिम मनुष्यने कपट करके ही धरती नाँव डाली थी, वह मारा जाकर पृथ्वीपर पड़ा हुआ है। जिहोंने आपसे कटु घबन कहे थे वे दुःशासन, कर्ण तथा शकुनि भी नष्ट हो गये। अब सारा राज्य आपका है।’

युधिष्ठिरने कहा—सौभाग्यकी बात है कि राजा दुर्गोधन मारा गया और आपसके घेरका अन्त हो गया। श्रीकृष्णकी सलाहके अनुसार चलकर हमने पृथ्वीपर विजय पायी। अच्छा हुआ कि मुझ माताके श्रुणसे उद्भूत हो गये और अपना क्रोध भी मुझने शान्त कर लिया। शत्रु मरा और मुझारी विजय हुई, यह कितने ध्यानवकी बात है !

पाण्डवोंका दुर्गोधनके शिविरमें आकर उसपर अधिकार करना, अर्जुनके रथका दाह

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! दुर्गोधनको भीमसेनके द्वारा मारा गया देख पाण्डवों और सञ्जयोंने क्या किया ?


सञ्जयने कहा—महाराज ! आपके पुत्रके मारे जानेपर श्रीकृष्णसहित पाण्डवों, पाञ्चालों तथा सञ्जयोंकी बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने दुष्ट उछाल-उछालकर तिहनाद करने लगे। किन्तुने धनुष टंकारा तो कोई शब्द बजाने लगा। किसी-किसीने टिडोरा पीटना शुरू किया। यहूतेरे तो हंसने और खेलने लगे। कुछ लोग भीमसेनसे थारंवार यों कहने लगे—‘दुर्गोधनने गदायुद्धमें बड़ा परिश्रम किया था, उसको मारकर आपने बहुत बड़ा पराक्रम कर दिया था ! भला, माना प्रकारके बलके बलके और सब तरहकी मण्डलाकार पतिघोसे घसते हुए शूरवीर दुर्गोधनको भीमसेनके साथ दूसरा कौन मार सकता था ? भीम ! आपने शत्रुओंको परास्त करके दुर्गोधनका वध करनेके कारण इस पृथ्वीपर अपना महान् पद फँसता है। यह बड़े सौभाग्यकी बात है !’

इस प्रकार जहाँ-तहाँ कुछ आरामी इकट्ठे होकर भीमसेनकी प्रशंसा कर रहे थे। पाञ्चाल और पाण्डव भी प्रसन्न होकर उनके साम्प्रदमें अलौकिक बातें मुना रहे थे। उस समय भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘राजाओ ! मरे हुए शत्रुको अपनी कटोरी धारोंसे फिर मानना उचित नहीं है। यह पापी तो उसी समय मर चुका था, जब सञ्जयको तिलाञ्जलि दे सोममें देगा और पापियोंकी सहायता लेकर हित चाहनेवाले मुद्दोंकी धाराका उल्लङ्घन करने लगा। विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म और सञ्जयोंने अनेकों बार अनुरोध किया; तो भी इतने पाण्डवोंको उनकी पंशूक सम्पत्ति नहीं दी। अब तो यह न मित्र करने योग्य है, न शत्रु; यह महानीध है। काटके समाप्त जड़ है। इमे घबनकी धारोंसे बेधनेमें कोई काम नहीं है। सब लोग रथोंपर बँटो, अब छावनीमें चलें।’

श्रीकृष्णकी बात सुनकर सब मरोग भरने-भरने लगे

बजाते हुए शिविरभी ओर चल विधे । आगे-आगे पाण्डव थे; उनके पीछे सारथ्यक, धृष्टद्युम्न, शिलन्धी, द्रोपदीके पुत्र राया दूसरे-दूसरे धनुंधर योद्धा चल रहे थे । सब लोग पहले दुर्योधनकी छावनीमें गये, जो राजाके न होनेसे श्रीहीन बिलायी दे रही थी । वहाँ कुछ बड़े मन्त्री और हिजड़े बंटे हुए थे । बाकी लोग रात्रियोंके साथ राजधानी चले गये थे । पाण्डवोंके पहुँचनेपर उनकी सेवामें दुर्योधनके सेवक हाथ जोड़े सँले कपड़े पहने उपस्थित हुए । पाण्डव भी दुर्योधनकी छावनीमें जाकर अपने-अपने स्थानोंसे उतर गये । अन्तमें श्रीकृष्ण ने अर्जुनसे कहा—‘तुम स्वयं उतरकर अपने अक्षय तरासा और धनुषकी भी रथसे उतार लो, इसका बाध भी उतारोगा । ऐसा करनेमें ही तुम्हारी भलाई है ।’

अर्जुनने धैरा ही किया । फिर भगवान्ने घोड़ोंकी बागडोर छोड़ दी और स्वयं भी रथसे उतर पड़े । समस्त



प्राणियोंके ईश्वर श्रीकृष्णके उतरते ही उस रथपर घंटा हुआ विजय कण्ठ अन्तर्धान हो गया; फिर वह विशाल रथ, जो द्रोणाचार्य और कर्णके विष्णुस्त्रोंसे षण्ड-सा ही हो चुका था, बिना आग लगाये ही प्रज्वलित हो उठा । उसके सारे उपकरण, जूआ, धुरी, लघाम और घोड़े—सब जलकर खाक हो गये । वह राक्षसी घेरी होकर धरतीपर गिरा गयी । यह देख पाण्डवोंको घड़ा आश्चर्य हुआ । अर्जुनने हाथ जोड़कर भगवान्के चरणोंमें प्रणाम करके पूछा—‘श्रीकृष्ण ! यह

यथा आश्चर्यजनक घटना हो गयी ? एकाएक रथ क्यों जल गया ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो इसका कारण बताइये ।’

श्रीकृष्णने कहा—‘अर्जुन ! सड़ईमें नाना प्रकारके अरत्योंके आघातसे यह रथ तो पहले ही जल चुका था, सिर्फ मेरे बंटे रहनेके कारण भस्म नहीं हुआ था । जब तुम्हारा सारा काम पूरा हो गया है, तब अभी-अभी इस रथको मैंने छोड़ा है; इसीलिये यह अब भस्म हुआ है । यों तो ब्रह्मास्त्रके तेजसे यह पहले ही दग्ध हो चुका था ।’

इसके बाद भगवान्ने किञ्चित् मुसकराकर राजा युधिष्ठिरको हृदयसे लगाया और कहा—‘कुन्तीनन्दन ! आपके शत्रु परास्त हुए और आपकी विजय हुई—यह बड़े शोभायकी बात है । अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तथा स्वयं आप इस विनाशकारी संग्रामसे कुशलपूर्वक बच गये—यह और भी ख़ुशीकी बात है । अब आपको आगे क्या करना है, इसका शीघ्र विचार कीजिये । उपप्लव्यमें जब मैं अर्जुनके साथ आपके पास आया था, उस समय आपने मुझे मधुपर्क वेकर कहा था—‘कृष्ण ! अर्जुन तुम्हारा भाई और मित्र है, इसे हरएक आफतसे बचाना ।’ उस दिन मैंने ‘हाँ’ कहकर आपकी आज्ञा स्वीकार की थी । आपके उस अर्जुनकी मैंने हर तरफ़से रक्षा की है, यह भाइयोंसाहित विजयी होकर इस रोमाञ्चकारी संग्रामसे छुटकारा पा गया !’

श्रीकृष्णकी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरको रोमाञ्च ही आया, वे कहने लगे—‘जनार्दन ! द्रोण और कर्णने जिस श्लाघास्त्रका प्रयोग किया था, उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था ? चन्द्रधारी इन्द्र भी उसका सामना नहीं कर सकते थे । आपकी ही कृपासे संशप्तक परास्त हुए हैं । अर्जुनने इस महासमरमें कभी पीठ नहीं बिलायी—यह भी आपके ही अनुग्रहका फल है । आपके द्वारा अनेकों बार हमारे कर्ण सिद्ध हुए हैं । उपप्लव्यमें महर्षि व्यासने मुझसे पहले ही कहा था—‘जहाँ धर्म है, वहाँ श्रीकृष्ण है; और जहाँ श्रीकृष्ण है, वहाँ विजय है ।’

तदनन्तर, उन सभी घोरोंने आपकी छावनीमें घुसकर खजाना, रत्नोंकी ढेरी तथा भंडार-घरपर अधिकार कर लिया । चाँची, सोना, सोती, मणि, अच्छे-अच्छे आभूषण, बढ़िया कम्बल, मृगचर्म तथा राज्यके बहुते-से सामान उनके हाथ लगे । साथ ही असंख्य दास-दासियोंको भी उन्होंने अपने अधीन किया । महाराज ! उस समय आपके अक्षय धनका भंडार पाकर पाण्डव ख़ुशीके मारे उछल पड़े, किलाकारियाँ मारने लगे । इसके बाद अपने चाहनोंको खोलकर वे वहाँ विश्राम करने लगे । विश्रामके समय श्रीकृष्णने कहा—‘आजकी रातमें हमलोगोंको अपने मङ्गलके लिये

छावनीके बाहर ही रहना चाहिये। 'बहुत अच्छा' कहकर पाण्डव भीकृष्ण और सात्यकिके साथ छावनीसे बाहर निकल गये। उन्होंने परम पवित्र ओषधती नदीके किनारे यह रात व्यतीत की।

उस समय राजा युधिष्ठिरने सप्तर्षीचिंतन कर्मका विचार करके कहा—'माधव ! एक बार क्रोधमें भरो हुई गांधारी देवीको शान्त करनेके लिये मारकी हस्तिनापुर जाना चाहिये, यही उचित जान पड़ता है।'

भगवान् कृष्णका हस्तिनापुर जाना और धृतराष्ट्र तथा गांधारीको शांतवना देकर वापस आना

जनमेजयने पूछा—विप्रवर ! धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान् भीकृष्णको गांधारीके पास क्यों भेजा ? जब पहले वे संघि करानेके लिये कौरवोंके पास गये थे, उस समय तो उनकी इच्छा पूरी हुई नहीं, जिसके कारण यह युद्ध हुआ। अब जब सारे मोटा मारे गये, दुर्घोषण गिर गया और पाण्डव शत्रुहीन हो गये, तब ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी, जिसके लिये भगवान् कृष्णको फिर वहाँ जाना पड़ा ! मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, इसमें कोई छोटा-मोटा कारण नहीं होगा।

वंशम्पायनजीने कहा—राजन् ! तुमने जो प्रश्न किया है, यह ठीक ही है; मैं इसका यथायं कारण बताता हूँ, सुनो। भीमसेनने गदायुद्धके नियमका उल्लंघन करके महावती दुर्घोषणको मारा था—यह बेलकर महाराज युधिष्ठिरको बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा 'दुर्घोषणको माता गांधारी बड़ी तपस्विनी हैं, उन्होंने जीवनभर धार तपस्या की है। वे चाहें तो सौतों सौकोंको भस्म कर सकती हैं, इसलिये सबसे पहले उन्हें ही शांत करना चाहिये। अग्न्या हस्तियोंके द्वारा जब वे अपने पुत्रका अग्न्यायूर्णक बंध मुनेंगे तो क्रोधमें भरकर अपने मनसे अग्नि प्रकट करके हमें भस्म कर डालेंगी।' यह सब सोच-विचारकर धर्मराजने भीकृष्णसे कहा—'गोविन्द ! आपकी ही कृपासे हमने अकष्टकर राज्य पाया है, अपने पुत्रयापोंसे तो हम इसे पालेकी बात भी नहीं सोच सकते थे। आपने ही साराधि बनकर हमारी सहायता और रक्षा की है। यदि आप इस युद्धमें अर्जुनके कर्णधार न होते, तो ये समूह जैसी कौरव-सेनाको जीतकर उसके पार कौसे पहुँच पाते ? हमलोगोंके लिये आपने कौन-कौन-सा कष्ट नहीं उठाया ? गदाओंके प्रहार, परिश्रमोंके मार, शक्ति, मिन्दिपात, तोमर और फरसोंकी चोटें सही तथा शत्रुओंको कठोर धारें भी सुनीं। किन्तु दुर्घोषणके मारे जानेसे सब सकल हो गया। इस प्रकार पृथिवि हमलोगोंको विजय हुई है, तथापि अभी हमारा

चित्त संदेहके मूलमें भूल रहा है। माधव ! जरा, आप गांधारीके क्रोधका तो खयाल कीजिये; वे निन्द कटोर तपस्यामें संलग्न रहनेके कारण बुद्धल हो गयी हैं, अपने पुत्र-पौत्रोंका बंध मुनकर निरचप ही हमें भग्न कर डालेंगी। इसलिये इस समय उन्हें प्रसन्न करना आवश्यक है। पुरयोत्तम ! जब वे पुत्रके शोकसे पीड़ित हो क्रोधसे सात-सात अर्शें करके बैठेंगी, उस समय आपके सिवा दूसरा कौन उनकी ओर दृष्टि डालनेका साहस करेगा ? अतः उन्हें शान्त करनेके लिये एक बार आपका वहाँ जाना उचित मान्य होता है। आपहीसे इस जगत्का प्राबुध्माय होता है और आपहीमें प्रलय। अतः आप ही यथायं कारणोंसे पुत्र सप्तर्षीचिंतन बात कहकर गांधारीको शीघ्र शान्त कर सकेंगे। धामा व्यासजी भी वही होंगे। आपको पाण्डवोंके हितको दृष्टिसे हर एक उपाय करके गांधारीका शोध शान्त कर देना चाहिये।'


धर्मराजकी बात सुनकर भगवान् कृष्णने दारुणकी बुझाया और उसे रथ तैयार करनेकी आज्ञा दी। दारुणने बड़ी चुनौति रथ सजाया और उसे जीतकर भगवान् की सेवामें ला सखा किया। भगवान् उतार सवार हो सुरंत हस्तिना-पुरकी घट द्विजे और रथकी धरपराहटमें नगरकी मुंजाते हुए वहाँ आ पहुँचे। नगरमें प्रवेश करके रथसे उतरे और धृतराष्ट्रको अपने आने की सूचना देकर उनके महलमें गये। जाते ही व्यासजीका दर्शन हुआ, जो पहलेसे ही वहाँ पधारे हुए थे। भीकृष्णने व्यासजी तथा राजा धृतराष्ट्रके चरण छूए और गांधारीको भी प्रणाम किया। फिर वे धृतराष्ट्रका हाथ अपने हाथ में ले कृष्ट-कृष्टकर रोने लगे। उन्होंने दो पड़ोसक शोकके आँसू बहाये। फिर जयसे अर्शें धीकर विधिबन् आचमन किया और धृतराष्ट्रके बड़ा—'मात ! आप युद्ध हैं। इसलिये कावके द्वारा जो कुछ संघटित हुआ और हो रहा है, वह आपने टिपा नहीं है। पाण्डव सदासे ही आपके इच्छानुसार कर्त्तव्य करते हैं।

उन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह हमारे कुलका नाश न हो। वे सर्वथा निर्वोष थे; तो भी उन्हें कपटपूर्वक जुएमें हराकर वनवास दिया गया। नाना प्रकारके वेप बनाकर उन्होंने अज्ञातवास्तका कष्ट भोगा। इसके अलावे भी उन्हें असमर्थ पुरुषोंकी तरह बहुतसे क्लेश सहने पड़े। जब युद्ध छिड़नेका अवसर आया, तो मैं स्वयं आपकी सेवामें उपस्थित हुआ और यह झगड़ा मिटानेके लिये मैंने सब लोगोंके सामने आपसे केवल पाँच गाँव माँगे थे। किन्तु कालकी प्रेरणासे आप भी लौनमें फँस गये और मेरी प्रार्थना ठुकरा दी गयी। इस तरह सिर्फ आपके अपराधसे सम्पूर्ण क्षत्रियोंका संहार हुआ है। भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, कृप, द्रोण, अश्वत्थामा और विदुरजी भी आपसे सदा संधिके लिये प्रार्थना करते रहे; किन्तु आपने किसीका कहना नहीं माना। सच है, जिसके मनपर कालका प्रभाव होता है, वह मोहमें पड़ ही जाता है। जब युद्धकी तैयारी शुरू हुई, उस समय आपकी भी बुद्धि मारी गयी! इसे कालका प्रभाव या प्रारब्धके सिद्धा और क्या कहा जा सकता है? वास्तवमें यह जीवन प्रारब्धके ही अधीन है। महाराज! आप पाण्डवोंपर दोषारोपण न कीजियेगा, उन बेचारोंका तनिक भी अपराध नहीं है। वे न कभी धर्मसे गिरे हैं, न न्यायसे। आपके प्रति उनका स्नेह भी कम नहीं हुआ है और अब तो आपको तथा गान्धारी देवीको पाण्डवोंसे ही पिण्डा-प्यानी मिलनेवाला है। उन्होंने आपका वंश बढ़ेगा। पुत्रसे मिलनेवाला सारा फल अब पाण्डवोंसे ही मिलेगा। इसलिये आपलोग पाण्डवोंके प्रति मनमें मैल न रखें, उनकी बुराई न सोचें। अपना ही अपराध या भूल समझकर उनका कल्याण मनावें, उनकी रक्षा करें। महाराज! आप नो जानते ही हैं, धर्मराज युधिष्ठिरकी आपके चरणोंमें कितनी भक्ति है। कितना स्वभाविक स्नेह है! उन्होंने अपनी बुराई करनेवाले शत्रुओंका ही संहार किया है; तो भी वे उनके शोकमें दिन-रात जनते रहते हैं, उन्हें तनिक भी चैन नहीं मिलता! आप और गान्धारीके लिये तो वे बहुत शोक करते हैं, उनके हृदयमें शान्ति नहीं है। लज्जाके मारे उन्हें आपके सामने आनेकी हिम्मत नहीं पड़ती।'

राजा धृतराष्ट्रसे इस प्रकार कहकर श्रीकृष्ण शोकसे दुर्बल हुई गान्धारी देवीसे बोले—'कल्याणी! मैं तुमसे भी जो कह रहा हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। आज संसारमें तुम्हारी-जैसी तपस्विनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है। तुम्हें याद होगा, उस दिन सभामें मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्षोंका हित करनेवाला धर्म और अर्थपुत्र वचन कहा था; किन्तु तुम्हारे पुत्रोंने उसे नहीं माना। दुर्योधन विजयका अभिलाषी था,

उससे तुमने खड़ाईके साथ कहा—'ओ मूर्ख! जिधर धर्म होता है, उसी पक्षकी जीत होती है।' राजकुमारी! तुम्हारी वही बात आज सत्य हुई है, ऐसा समझकर मनमें शोक न करो। तुममें तपस्याका बहुत बड़ा वल है, तुम अपनी क्रोधमयी दृष्टिसे चराचर जगत्को भस्म कर डालनेकी शक्ति रखती हो; तो भी तुम्हें पाण्डवोंके नाशका विचार कभी मनमें नहीं लाना चाहिये।'

श्रीकृष्णकी बात सुनकर गान्धारीने कहा—'केशव! तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अबतक मेरे मनमें बड़ी व्यथा



थी, मैं चिन्ताकी आगमें जल रही थी; इसलिये मेरी बुद्धि विचलित हो गयी थी—मैं पाण्डवोंके अनिष्टकी बात सोच रही थी। किन्तु अब तुम्हारी बातें सुननेसे मेरी बुद्धि स्थिर हो गयी—क्रोधका आवेश जाता रहा। जनार्दन! ये राजा अंधे हैं, दूढ़े हैं और इनके पुत्र मारे गये हैं—इसके कारण शोकसे पीड़ित भी हैं; अब वीरवर पाण्डवोंके साथ तुम्हें इनको सहारा देनेवाले हो।'

इतना कहते-कहते गान्धारी अञ्चलसे मुँह ढाँपकर फूट-फूटकर रोने लगी। पुत्रोंके शोकसे उसे बड़ा संताप होने लगा। उस समय श्रीकृष्णने कितने ही कारण बताकर, कितनी ही युक्तियाँ देकर गान्धारीको सान्त्वना दी—धीरज बंधाया। धृतराष्ट्र तथा गान्धारीको आश्वत्थान देनेके पश्चात् भगवान्ने

अश्वत्थामाके भीषण संकल्पका स्मरण किया; फिर तो वे सुरत उठकर खड़े हो गये और व्यागजीके चरणोंमें मस्तक झुकाकर राजा धृतराष्ट्रके घोसे—'महाराज ! अब मैं यहाँसे जानेकी आज्ञा चाहता हूँ, आप शोक न करें । इस समय अश्वत्थामाके मनमें यापपूर्ण विचार जाग्रत हुआ है, इसीतिये सहसा उठ पड़ा हूँ । उसने आजकी रातमें पाण्डवोंकी मार डालनेका निरवय किया है ।'

यह सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारीने कहा—'जनार्दन ! यदि ऐसी बात है, तो जल्दी जाओ और पाण्डवोंकी रक्षा करो । हम फिर सुमने शीघ्र हो मिलने ।' तदनन्तर, भगवान् श्रीकृष्ण दारुणके साथ सुरत चम दिये । उनके जानेके बाद महात्मा व्यासजी धृतराष्ट्रको आश्वामन देने लगे । धानकीके पास पहुँचकर श्रीकृष्ण पाण्डवोंसे मिले और हस्तितानुसूक्त सारा समाचार उन्हें कह गुनाया ।

दुर्योधनका विलाप तथा अश्वत्थामाका विषाद, प्रतिज्ञा और सेनापतिके पदपर अभिषेक

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! मेरा पुत्र बड़ा क्रोधी था, पाण्डवोंसे घेर रखनेके कारण उत्तपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा । यताओ, जब जाँघें टूट जानेसे वह पुष्पीपर गिरा और भीमसेनने उसके सिरपर पेर रख्या, उसके बाद उसने क्या कहा ?

सञ्जयने कहा—महाराज ! जाँघ टूट जानेपर जब दुर्योधन धरतीपर गिरा तो धूममें सन गया । फिर बिजरे हुए बालोंको समेटता हुआ वह बमों विसाओंकी ओर देखने लगा । तत्परवान् बड़ी क्रोशियासे किसी तरह बालोंको बाँधकर उसने आँसूमें नेत्रोंसे मेरी ओर देखा और अपनी दोनों भुजाओंको धरतीपर रखकर उच्छ्वास सेते हुए कहा—'ओह ! शान्तनुनन्दन भीष्म, कर्ण, द्रुपदाचार्य, शकुनि, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और कृतवर्मा—जैसे घोर मेरे रक्षक थे; तो भी मैं इस दशाको आ पहुँचा ! निरवय ही कालजद कोई भी उल्लङ्घन नहीं कर सकता । जो एक दिन ग्यारह अश्रीहिणों सेनाका स्वामी था, उसकी आज यह अवस्था ! सञ्जय ! मेरे पलके मोढ़ाओंमें जो लोग जीवित हों, उनसे कहना कि 'भीमसेनने महायुद्धके नियमको तोड़कर दुर्योधनको मारा है । क्रूर बर्न करनेवाले पाण्डवोंने भीष्म, द्रोण, भूरिधवा और कर्णको कपटपूर्वक मारनेके परचातु मेरे साथ छल करके एक और कलंकका टीका लगा दिया । मुझे विरवासा है, उगहें इस युद्धके कारण सत्पुत्रोंके समाजमें पछताना पड़ेगा । कौन ऐसा विद्वान् होगा, जो मर्दानका भंग करनेवाले मनुष्यके प्रति सम्मान प्रकट करेगा ? आज पापी भीमसेन जैसा लुप्त हो रहा है, अधर्मसे विजय पानेपर दूसरा कौन बुद्धिमान् पुरव ऐसी खुशी मनावेगा ? मेरी जाँघें टूट गयी हैं; ऐसी बरामे भीमने भी मेरे सिरको परंसे बढाया है, इससे बढ़कर आरचवर्षी बात और क्या

होगी ? मेरे माता-पिता बहुत दुःखी होंगे, उनसे यह संवेग कहना—'मैंने यत किये; जो भरण-भोगन करने योग्य थे, उनका पालन किया और समुद्रपयंत पृथ्वीपर अच्छी तरह शासन किया । शत्रु जीवित थे, तो भी उनके भस्मकपर पेर रखता और शत्रुके अनुगार मित्रोंका प्रिय किया । अपने बन्धु-आयुधियोंका आदर तथा धर्ममें रहनेवालोंका सञ्चार किया । धर्म, अर्थ तथा कायका सेवन किया; दूसरे राष्ट्रोंपर आक्रमण करके उन्हें जीता और दासकी भाँति राजाओंपर हुकम घसाया । जो अपने प्रिय ध्यस्तित थे, उनकी सदा ही भलाई की ! फिर मुझे अच्छा अन्त किसका हुआ होगा ? विधियत् वेदोंका स्वाध्याय किया, नाना प्रकारके बान बिये और आयुधमें मुझे बभी रोग नहीं हुआ । मैंने अपने धर्मसे लोकोपर विजय पायो है तथा धर्मात्मा सत्रिय जैसी मृत्यु चाहते हैं, यही मुझे प्राप्त हो गयी । इससे अच्छा अन्त किसका होगा ? संतोषको बात है कि मैं पीठ बिनाकर मारा नहीं, मेरे मनमें कोई बुबिधार नहीं उत्पन्न हुआ । तो भी जैसे सोये अथवा पागल हुए मनुष्यको नहर देकर मार डाला जाय, उसी तरह उस पापोंने युद्धधर्मका उल्लङ्घन करके मेरा बध किया है !'

तत्परवात् आपके पुत्रने संवेसावाहकोसे कहा—'अश्वत्थामा, कृतवर्मा और द्रुपदाचार्यसे मेरी बात कह देना—'अनेकों बार युद्धके नियमको भंग करके पापमें प्रवृत्त हुए इन पाण्डवोंका आपलोग कमी भी विरवासा न बीजियेगा । मैं भीमके द्वारा अग्रमपूर्वक मारा गया हूँ । जो मेरे ही मिये स्वर्गमें गये हैं उन आचार्य द्रोण, कर्ण, शल्य, द्रुपतेन, शकुनि, जलसय, भगदत्त, भूरिधवा, जयद्रथ तथा बुःसागन आदि भाइयोंके तथा सत्यभ, बुःसागनकुमार और अन्य हजारों राजाओंके पीछे अब मैं भी स्वर्गमोर्बमें चला जाऊँगा । विन्

यही है कि अपने भाइयों और पतिकी मृत्युका समाचार सुनकर मेरी दुःखिनी बहिन दुःखालाकी क्या दगा होगी। पुत्र और पौत्रोंकी विनयवती हूँ चहुँओंके साथ मेरे माता-पिता किस अवस्थाको पहुँचेंगे ! बेटे और पतिकी मृत्यु सुनकर बेचारी नक्षमणकी माता भी नुरंत प्राण दे देगी। व्याख्यान देनेमें कुशल और संन्यासीके रूपमें चारों ओर घूमने-फिरनेवाले चारोंकी यदि मेरी हानत मानस हो जायगी तो अवश्य ही वे मेरे चरका चरता लेंगे। मैं तो त्रिभुवनमें प्रसिद्ध इस पवित्र तीर्थ समन्तपञ्चकमें प्राण त्याग कर रहा हूँ, इसलिये मुझे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होगी।'

राजन् ! आपके पुत्रका यह विनाश सुनकर हजारों मनुष्योंकी आँखोंमें आँसू भर आये। वे व्याकुल होकर बहसि धधर-धधर हट गये। दूनोंने आफर अश्वत्यामासे गदायुद्धकी सारी बातें तथा राजाको श्रवणपूर्वक गिराये जानेका समाचार भी कह गुनाया। इसके बाद वहाँ थोड़ी देरतक विचार करनेके पश्चात् वे जहाँसे आये थे, वहाँ लौट गये।

संदेशवाहकोंके मुखसे दुर्योधनके सारे जानेका समाचार सुनकर बचे हुए कौरव महारथी अश्वत्यामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा—जो स्वयं भी तीर्थे बाण, गदा, तीमर और शक्तियोंके प्रहारसे विशेष घायल हो चुके थे—तेज चलनेवाले घोड़ोंसे जुते हुए स्वयं सवार हो नुरंत युद्धभूमिमें गये। वहाँ पहुँचकर देखा कि दुर्योधन धरतीपर गिरा हुआ छटपटा रहा है और उसका सारा शरीर खूनसे भीगा हुआ है। क्रोधके सारे उसकी भीहें तनी और आँखें चढ़ी हुई थीं, वह अमर्यमें भरा दिखायी देता था।

अपने राजाको इस अवस्थामें पड़ा देख कृपाचार्य आदिको बड़ा मोह हुआ। वे रथोंसे उतरकर दुर्योधनके पास ही जमानपर बैठ गये। उस समय अश्वत्यामाकी आँखोंमें आँसू भर आये, वह सिसकता हुआ कहने लगा—'राजन् ! निश्चय ही इस मनुष्यलोकमें कुछ भी सत्य नहीं है, जहाँ तुम्हारे-जैसा राजा धूममें लोट रहा है। अन्यथा जो एक दिन समस्त भूमण्डलका स्वामी था, जिसने सचपर ह्वम चलाया, वही आज इस निजंन घनमें अकेला कैसे पड़ा हुआ है। आज मझे ह-प्राप्त नहीं दिखायी देना महारथी के

तथा सम्पूर्ण हितेषी मित्रोंका भी दर्शन नहीं होता—यह क्या बात है ? वास्तवमें कानकी गतिको जानना बड़ा कठिन है। जरा समयका उलट-फेर तो देना, तुम मूर्धाभिपिकत राजाओंके अप्रगण्य होकर भी आज तिनकोंसहित धूममें लोट रहे हो ! महाराज ! तुम्हारा वह श्वेत छत्र कहाँ है ? चक्र कहाँ है ? और वह विशाल सेना कहाँ चली गयी ? किस कारणसे कौन-सा काम होगा, इसको समझना बड़ा मुश्किल है; क्योंकि तुम समस्त प्रजाके माननीय राजा होकर भी आज इस दगाको पहुँच गये। तुम तो इन्द्रसे भी मिटनेका हीसला रखते थे; जब तुमपर भी यह विपत्ति आ गयी तो यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि किसी भी मनुष्यकी सम्पत्ति स्थिर नहीं होती।'

अत्यन्त दुखी हुए अश्वत्यामाकी बात सुनकर दुर्योधनकी आँखोंमें शोकके आँसू उमड़ आये। उसने दोनों हाथोंसे नेत्रोंको पोंछा और कृपाचार्य आदिसे यह समयोचित वचन कहा—'मित्रो ! इस मर्यलोकका ऐसा ही नियम है, यह विधातका बनाया हुआ धर्म है; इसलिये फाल-श्रमसे एक-न-एक दिन समस्त प्राणियोंका मरण होता है। वही आज मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसे आपलोग अपनी आँखों देख रहे हैं। एक दिन मैं इस भूमण्डलका पालन करनेवाला राजा था और आज इस अवस्थाको पहुँचा हुआ हूँ। तो भी मुझे इस बातकी खुशी है कि युद्धमें बड़ी-से-बड़ी विपत्ति आनेपर भी मैं कनी पीछे नहीं हटा। पापियोंने मुझे मारा भी तो छलसे। मैंने युद्धमें सदा ही उत्साह दिखाया है और अपने बन्धु-बान्धवोंके सारे जानेपर स्वयं भी युद्धमें ही प्राण-त्याग कर रहा हूँ; इससे मुझे विशेष संतोष है। सौभाग्यकी बात है कि आपलोगोंको इस तरसंहारसे मुक्त देख रहा हूँ। साथ ही आपलोग सकुशल एवं कुछ करनेमें समर्थ हैं—यह मेरे लिये और भी प्रसन्नताकी बात है। आपलोगोंका मुझेपर स्यामाविक स्नेह है, इसलिये मेरे मरनेसे दुखी हो रहे हैं; किन्तु चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं है। यदि वेद प्रमाणभूत हैं, तो मैंने अक्षयलोकोंपर अधिकार प्राप्त किया है; इसलिये मैं कदापि शोकके योग्य नहीं हूँ। आपलोगोंने अपने स्वरूपके अनुरूप पराक्रम दिखाया और सदा ही मुझे विजय दिलाने-का प्रयत्न किया है; किन्तु देवके विधानका कौन उल्लङ्घन

महाराज ! इतना कहते-कहते दुर्योधनकी आँसुमें किरने आँसू उमड़ आये तथा वह शरीरकी पीड़ाने भी अत्यन्त व्याकुल हो गया; इसलिये अब आगे कुछ न बोल सका, चुप हो रहा। राजाकी यह दशा देख अश्वत्थामाकी आँसु भर आये, उसे बड़ा दुःख हुआ। साथ ही शत्रुओंपर अमर्य भी हुआ। यह शोधते आगवदला हो उठा और हाथसे हाथ दबाता हुआ कहने लगा—'राजन् ! उन पापियोंनि क्रूरकर्म करके ही मेरे पिताकी भी मारा था; किंतु उसका मुझे उतना संताप नहीं है, जितना आज तुम्हारी दशा देखकर हो रहा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो—'मैंने जो यज्ञ किये, कुण्ड-सात्वाव आदि बनवाये तथा और जो दान, धर्म एवं पुण्य किये हैं, उन सबकी तथा सत्यकी भी शपथ पाकर कहता हूँ—आज मैं श्रीकृष्णके देखने-देखते हर एक उपायसे काम लेकर समस्त पाश्चात्तोंको यमलोक भेज दूँगा। इसके लिये सिर्फ़ तुम आता दे दो।'

अश्वत्थामाकी बात सुनकर दुर्योधन मन-ही-मन प्रसन्न हुआ और कृपाचार्यसे बोला—'आचार्य ! आप शीघ्र ही जलसे भरा हुआ कलश ले आइये।' कृपाचार्यने ऐसा ही किया। जब कलश लेकर वे राजाके निकट आये, तो उसने कहा—'विप्रवर ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो द्रोणकुमारका सेनापतिके पक्षपर अनियेक कर दीजिये; आपका भला होगा।' राजाकी आज्ञासे कृपाचार्यने अश्वत्थामाका अभिप्रेक किया। इसके बाद वह दुर्योधनको



हृदयसे शपाकर सम्पूर्ण दिराज्योंको सिंहनादसे प्रतिघ्वनित करता हुआ वहाँसे चल दिया। दुर्योधन खूनमें डूबा हुआ रातभर वहाँ पड़ा रहा। युद्धभूमिसे दूर जाकर वे तीनों महारथी आगोंके कार्यभरपर विचार करने लगे।

संक्षिप्त महाभारत

सौप्तिकपर्व

तीनों महारथियोंका एक वनमें विश्राम करना और वहाँ अश्वत्थामाका पाण्डवोंको कपटपूर्वक मारनेका निश्चय करके कृपाचार्य और कृतवर्मासे सलाह लेना

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्यसत्वा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा—ये तीनों वीर दक्षिणकी ओर चले और सूर्यास्तके समय शिविरके पास पहुँच गये । इतनेहीमें उन्हें विजयाभिलाषी पाण्डव-वीरोंका भीषण नाद सुनायी दिया; अतः उनकी चढ़ाईकी आशंकासे वे भयभीत होकर पूर्वकी ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर उन्होंने मुहूर्तभर विश्राम किया ।

राजा धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! मेरे पुत्र दुर्योधनमें दस हजार हाथियोंका बल था । उसे भीमसेनने मार डाला—इस बातपर एकाएकी विश्रवास नहीं होता । मेरे पुत्रका शरीर वज्रके समान कठोर था । उसे भी पाण्डवोंने संग्रामभूमिमें नष्ट कर दिया । इससे निश्चय होता है कि प्रारब्धसे पार पाना किसी प्रकार सम्भव नहीं है । भैया सञ्जय ! मेरा हृदय अवश्य ही फौलादका बना हुआ है जो अपने सौ पुत्रोंकी मृत्युका संवाद सुनकर भी इसके हजारों टुकड़े नहीं हुए । भला, अब पुत्रहीन होकर हम बूढ़े-बूढ़िया कैसे जीवित रहेंगे ? मैं एक राजाका पिता और स्वयं राजा ही था । सौ अब पाण्डवोंका दास बनकर किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कहेगा ? ओह ! जिसने अकेले ही मेरे सौ-के-सौ पुत्रोंका वध कर डाला और मेरी जिदगीके आखिरी दिन दुःखमय कर दिये, उस भीमसेनकी बातोंकी मैं कैसे सुन सकूँगा ? अच्छा, सञ्जय ! यह तो बताओ कि इस प्रकार

वेदा दुर्योधनके अधर्मपूर्वक मारे जानेपर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामाने क्या किया ?

सञ्जयने कहा—राजन् ! आपके पक्षके ये तीनों वीर थोड़ी ही दूर गये थे कि इन्होंने तरह-तरहके वृक्ष और लताओंसे भरा हुआ एक भयंकर वन देखा । वहाँ थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने घोड़ोंको पानी पिलाया और थका-वट दूर हो जानेपर उस सघन वनमें प्रवेश किया । वहाँ चारों ओर दृष्टि डालनेपर उन्हें एक विशाल बटवृक्ष दिखायी दिया, जिसकी हजारों शाखाएँ सब ओर फैली हुई थीं । उस बटके पास पहुँचकर वे महारथी अपने रथोंसे उतर पड़े और स्नानादि करके संघ्यावन्दन करने लगे । इतनेहीमें भगवान् भास्कर अस्तावलके शिखरपर पहुँच गये और सम्पूर्ण संसारमें निशादेवीका आधिपत्य हो गया । सब ओर छिटके हुए ग्रह, नक्षत्र और तारोंसे सुशोभित गगनमण्डल दर्शनीय वितानके समान शोभा पाने लगा । अमी रात्रिका आरम्भकाल ही था । कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुःख और शोकमें डूबे हुए उस बटवृक्षके निकट पास-ही-पास बैठ गये और कौरव तथा पाण्डवोंके विगत संहारके लिये शोक प्रकट करने लगे । अत्यन्त थके होनेके कारण नौदने उन्हें धर दबाया । इससे आचार्य कृप और कृतवर्मा सौ गये । यद्यपि ये महामूल्य पलंगोंपर सोनेवाले, सब प्रकार की सुखसामग्रियोंसे सम्पन्न और दुःखके अनभ्यासी थे, तो भी अनार्योंकी तरह पृथ्वीपर ही पड़ गये ।

किंतु अश्वत्थामा इस समय अत्यन्त क्रोध और रोषमें भरा हुआ था । इसलिये उसे नौद नहीं आयी । उसने चारों ओर वनमें दृष्टि डाली तो उसे उस बटवृक्षपर बहुत-से कौए दिखायी दिये । उस रात हजारों कौओंने उस वृक्षपर बसेरा लिया था और वे आनन्दसे अलग-अलग घोंसलोंमें सोये हुए थे । इसी समय उसे एक भयानक उल्लू उस ओर

आता दिवायी दिया। यह धीरे-धीरे गुनगुनाता घटती एक सातापर कूड़ा और उसपर सोये हुए अनेकों कीओंकी मारने लगा। उसने अपने पंजोते किन्हीं कीओंके पर मोच डाले, किन्हींके सिर काट लिये और किन्हींके घेर तोड़ दिये। इस प्रकार अपनी आँसूके सामने आये हुए अनेकों कीओंको उसने घात-की-घातमें मार डाला। इसने वह साता घटभूषा कीओंके शरीर और अंगायवयोते भर गया।

रात्रिके समय उरलूका यह कपटपूर्ण व्यवहार देखकर अरवत्यामाने भी येंता ही करनेका संकल्प किया। उस



एकान्त देशमें यह विचारने लगा, 'इन पराने अवश्य ही

मुझे संघाम करनेकी चुनिका उपदेश किया है। यह भयम भी इसीके योग्य है। पाण्डवसंग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बखवान् और उस्ताही हो रहे हैं। इस समय अपनी शक्तिले तो मैं उन्हें मार नहीं सकता और राजा बुयोधनके भ्राजे उनका बध करनेकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब यदि मैं ग्यायानुसार युद्ध करना तो निःसंदेह मुझे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, कपटने अवयय शकसंता ही सकता है और शत्रुओंका भी सूख संहार हो सकता है। पाण्डवोंने भी तो पद-पदपर अनेकों निन्दनीय और कुत्सित कर्म किये हैं। युद्धके अनुभवी लोगोंका ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रातके समय नींदमें बँहोका हो, जिसका नायक लट्ट हो चुका हो, जिसके घोड़ा छिन्न-भिन्न हो गये हों और जिसमें मतमें बँदा हो गया हो, उसपर भी शत्रुको प्रहार करना चाहिये। इस प्रकार विचार करते-हीमपुत्रने रात्रिके समय सोये हुए पाण्डव और पाण्डवात् घोड़ोंको लट्ट करनेका निश्चय किया। फिर उसने कृपाचार्य और कृतकर्माकी जगाकर अपना निश्चय सुनाया। वे दोनों महावीर अरवत्यामाकी बात सुनकर बड़े सज्जित हुए और उन्हें उसका कोई उत्तर न मून्ना। तब अरवत्यामाने एक मूर्खतक विचार करके अभ्रगदग्द होकर कहा, 'महाराज बुयोधन प्यारह असौहिणो सेनाके स्वामी थे। उन्हें अनेकों क्षुद्र घोड़ाप्राने मिलकर भीमसेनके हाथसे मरवा दिया। पापी भीमने एक मूर्ख-मिथित साम्राट्के मस्तकपर ताज मारी—यह उसका कितना लोटा काम था। हाय! पाण्डवोंने कौत्सोका बँसा भीषण संहार किया है कि आज इस महान् संहारने इम तीन ही बच पाये हैं। मैं तो इस सबको समझना फेर ही समझता हूँ। यदि मोहवसा आप दोनोंकी बुद्धि लट्ट नहीं हुई है तो इस घोर संकटके समय हमारा क्या कर्तव्य है, यह बनानेकी कृपा करें।'

कृपाचार्य और अरवत्यामाका संवाद

तब कृपाचार्यने कहा—महाबाहो! तुमने जो बात कही, यह मैंने सुन ली; अब कुछ मेरी बात भी सुन लो। सभी मनुष्य बँध और पुरुषार्थ—दो प्रकारके कर्मोंसे बँधे हुए हैं। इन दोनो गिया और कुछ नहीं है। अकेले बँध या पुरुषार्थसे कार्यसिद्धि नहीं होगी। सफलताके लिये दोनोंका सहयोग आवश्यक है। इन दोनोंमें दँध ही फलका निश्चय करके स्वयं उतै देनेके लिये प्रवृत्त होना है, तो भी बुद्धिमान् लोग कुराचनपूर्वक पुरुषार्थमें लगे रहने हैं। मनुष्योंके

सम्पूर्ण कार्य और प्रयोजन इन्हीं दोनोंसे सिद्ध होते हैं। उनके लिये हुए पुरुषार्थकी सिद्धि भी देखके ही अधीन है और देखके अनुब्रूततासे ही उन्हें फलकी प्राप्ति होगी है। कार्य-कुराचन मनुष्य बँधके अनुब्रूत न होनेपर जो कार्य हाथमें लैने है, वृत्त साध्यातीये करनेपर भी उसका कोई फल नहीं होना। इगने विपरीत जो लोग आनमी और अमानवी होने हैं, उन्हें तो बिगो कामको आरम्भ करना ही अच्छा नहीं लगता। किन्तु बुद्धिमानोंको यह बात नहीं देखनी; बलोक

संसारमें कोई भी कर्म प्रायः निष्फल नहीं देखा जाता, परंतु कर्म न करनेपर तो दुःख ही दिखायी देता है। जो प्रयत्न न करनेपर भी देवयोगसे ही सब प्रकारके फल प्राप्त कर लेते हैं अथवा जिन्हें चेष्टा करनेपर भी कोई फल नहीं मिलता—ऐसे लोग तो विरले ही होते हैं। तथापि तत्परता-पूर्वक कार्योंमें लगे हुए मनुष्य आनन्दसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आलसियोंको कभी सुख नहीं मिलता। इस जीवलोकमें प्रायः तत्परताके साथ कर्म करनेवाले ही अपना हितसाधन करते देखे जाते हैं। यदि उन्हें कार्य आरम्भ करनेपर भी कोई फल नहीं मिलता तो उनको किसी प्रकारकी निन्दा नहीं की जा सकती। परंतु जो बिना कुछ किये ही फल पा लेता है, उसकी लोकमें निन्दा होती है और प्रायः लोग उससे द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार जो पुरुष देव और पुरुषार्थ दोनोंके सहयोगको न मानकर केवल देव या पुरुषार्थके ही भरोसे पड़ा रहता है, वह अपना अनर्थ ही करता है—यही बुद्धिमानोंका निश्चय है।

कई बार उद्योग करनेपर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें पुरुषार्थकी न्यूनता और देव—ये दो कारण हैं। परंतु पुरुषार्थ न करनेपर तो कोई कर्म सिद्ध हो ही नहीं सकता। अतः जो पुरुष वृद्धोंकी सेवा करता है, उनसे अपने कल्याणका साधन पूछता है और उनके वताये हुए हितकारी वचनोंका पालन करता है, उसका यह आचरण ठीक माना जाता है। कार्यका आरम्भ कर देनेपर वृद्धजनोंद्वारा सम्मानित पुरुषोंसे बार-बार सलाह लेनी चाहिये। कार्यकी सफलतामें वे परम कारण माने जाते हैं तथा सिद्धि उन्हींके आश्रित कही जाती है। जो पुरुष वृद्धोंकी बात सुनकर कार्य आरम्भ करता है, उसे अपने कार्यका फल बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष राग, क्रोध, भय या लोभसे किसी कार्यमें प्रवृत्त होता है वह उसमें सफलता पानेमें असमर्थ रहता है और तुरंत ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है। दुर्योग भी लोभी और ओछी बुद्धिका पुरुष था। उसने असमर्थ होनेपर भी मूर्खताके कारण बिना विचार किये अपने हितैषियोंका अनादर करके वृद्धजनोंकी सलाहसे यह काम आरम्भ किया था। पाण्डव-लोग गुणोंमें उससे बड़े-चढ़े थे, तथापि बहुत रोकनेपर भी उसने उनसे वैर ठाना। वह पहलेसे ही बड़ा दुष्टस्वभाव था, इसलिये धीरज धारण न कर सका और न उसने अपने मित्रोंकी ही बात सुनी। इसीसे अपने प्रयासमें विफल होकर उसे पश्चात्ताप करना पड़ा। हमलोगोंने उस पापीका पक्ष लिया था, इसलिये हमें भी यह महान् अनर्थ भोगना पड़ा। मैं बहुत सोचता हूँ, तथापि इस कष्टसे संतप्त होनेके कारण मेरी बुद्धिको तो आज भी कोई हितकी बात नहीं सूझती।

मनुष्य जब स्वयं हिताहितका विचार करनेमें असमर्थ हो जाय तो उसे अपने सुहृदोंसे सलाह लेनी चाहिये। वहाँ इसे बुद्धि और विनयकी प्राप्ति हो सकती है और वहाँ इसे अपने हितका साधन भी मिल सकता है। पूछनेपर वे लोग जैसी सलाह दें, वही इसे करना चाहिये। अतः हमलोग राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी और महामति विदुरजीसे मिलकर सलाह लें और हमारे पूछनेपर जैसा वे कहें, वही हम करें—मेरी बुद्धि तो यही निश्चय करती है। यह बात तो निश्चित ही है कि कार्य आरम्भ किये बिना सफलता कभी नहीं मिलती तथा जिनका काम उद्योग करनेपर भी सिद्ध नहीं होता, उनका तो प्रारब्ध ही खोटा समझना चाहिये।

सञ्जय कहते हैं—राजन्! आचार्य कृपकी यह धर्म और अर्थयुक्त शून्य सम्मति सुनकर अश्रुवत्यामा शोकसे दहकती हुई अग्निके समान जलने लगा। फिर उसने मनको फड़ा करके कृप और कृतवर्मा दोनोंसे कहा—‘प्रत्येक मनुष्यमें जो जुदो-जुदो बुद्धि होती है, उसीसे वे संतुष्ट रहते हैं। सब लोग अपनेको ही विशेष बुद्धिमान् समझते हैं। सबको अपनी ही समझ अच्छी जान पड़ती है। वे बार-बार दूसरोंकी बुद्धिकी निन्दा और अपनी बुद्धिकी बड़ाई करते हैं। यदि किसी कारणवश किन्हींका विचार बहुत-से मनुष्योंसे मिल जाता है तो वे एक दूसरेसे संतुष्ट रहते हैं और बार-बार एक-दूसरेका सम्मान करते हैं। किंतु समयके फेरसे फिर उन्हीं मनुष्योंकी बुद्धियाँ विपरीत होकर एक-दूसरीसे विरुद्ध हो जाती हैं। मनुष्योंके चित्त प्रायः भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं; अतः उनके विभिन्न चित्तोंके परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकारकी बुद्धियाँ पैदा होती हैं। एक मनुष्य भुवावस्थामें एक प्रकारकी बुद्धिसे सुगंध-सा हो जाता है, मध्यम अवस्थामें उसपर दूसरे प्रकारकी बुद्धि सवार होती है और वृद्धावस्थामें उसे अन्य ही प्रकारकी बुद्धि अच्छी लगने लगती है। जब मनुष्यपर बड़ा भारी संकट आता है या जब उसे महान् वैभवकी प्राप्ति होती है तो उसकी बुद्धिमें विकार आ जाता है। इस प्रकार एक ही मनुष्यमें समय-समयपर भिन्न-भिन्न बुद्धियाँ होती रहती हैं और उस समय उसको अपनी पहली बुद्धि अर्चिकर हो जाती है। किंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार निश्चय करके जिस बातको अच्छी समझता है वैसा ही अपना भाव बना लेता है, उसीकी बुद्धि उद्योगमें सहायक होती है। सब लोग अपनी ही बुद्धि और समझका आश्रय लेकर तरह-तरहकी चेष्टाएँ करते हैं और उन्हींमें अपना हित मानते हैं। आज आपत्तियोंमें पड़कर मुझे जो बुद्धि पैदा हुई है, वह मैं आपको सुनाता हूँ। इससे अवश्य ही मेरे शोकका नाश हो जायगा। प्रजापति प्रजाओंको

उत्पन्न करके उनके लिये कर्मका विधान करता है और प्रत्येक वर्णको एक-एक विशेष गुण देता है। वह ब्राह्मणको सर्वोत्तम वेद-विद्या, क्षत्रियको उत्तम तेज, वैश्यको व्यापार-कौशल और शूद्रको समस्त वर्णोंके अनुकूल रहनेकी योग्यता देता है। संपन्नहीन ब्राह्मण बुरा है, तेजोहीन क्षत्रिय निकम्मा है, अकुशल वैश्य-निन्दनीय है और अन्य वर्णोंके प्रतिकूल आचरण करनेवाला शूद्र अधम है। मैं तो ब्राह्मणोंके अत्यन्त पूजनीय उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ। मन्दभाग्य होनेसे ही इस क्षात्रधर्मका अनुष्ठान कर रहा हूँ। यदि क्षात्रधर्मको जानकर भी मैं ब्राह्मणत्वकी ओट लेकर इस महान् कर्मको न करूँ तो मेरा यह आचरण सत्युष्योंको अच्छा नहीं लगेगा। मैं रणक्षेत्रमें दिव्य धनुष और दिव्य शस्त्र धारण करता हूँ। ऐसी स्थितिमें पिताजीको युद्धमें मारा गया देखकर अब मैं किस मूँहसे समामें बोलूंगा ? अतः आज मैं क्षात्रधर्मका आश्रय लेकर अपने पिता और राजा दुर्योधनके ही मार्गका अनुसरण करूँगा। आज विजयध्रीसे देदीप्यमान पाञ्चालवीर बड़े हयंसे कवच उतारकर खेलके सो रहे होंगे। अतः आज रात्रिमें उन सोते हुएोंपर ही मैं धावा करूँगा और नौदमें बेहोश पड़े हुए उन शत्रुओंको गिबिरके भीतर ही तहस-नहस कर डालूँगा। तभी मुझे चैन पड़ेगा। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और जयद्रथने जो दुर्गम मार्ग पकड़ा है उसीसे आज मैं पाञ्चालोंको भी भेजकर छोड़ूँगा। आज रात्रिमें ही मैं पशुके समान बलाकार-से पाञ्चालराज धृष्टद्युम्नका सिर कुचल डालूँगा। आज रात्रिमें ही मैं अपनी तोखी तलवारसे सोये हुए पाञ्चाल और पाण्डववीरोके सिर उड़ा दूँगा तथा आज रात्रिमें ही मैं सोयी हुई पाञ्चालसेनाको नष्ट करके सुखी और सफलमनोरथ होऊँगा।'

कृपाचार्य बोले—भैया ! तुम अपनी देकुसे टलनेवाले नहीं हो। आज पाण्डवोंसे बदला लेनेके लिये तुम्हारा ऐसा विचार हुआ है, सो ठीक ही है। कल सबेरा होनेपर हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आज तुम बहुत बेरतक जगते रहे हो, इसलिये आजकी रात ली ली ली। इससे तुम्हें कुछ विश्राम मिल जायगा, तुम्हारी नौद पूरे हो जायगी और तुम्हारा चित्त भी ठिकानेपर आ जायगा। इसके बाद यदि तुम शत्रुओंका सामना करोगे तो अथय ही उनका वध कर सकोगे। हमलोग भी रातभर सोकर नौद और थकानसे छूट जायें। रात बीतनेपर हम शत्रुओंका संहार करेंगे। फिर जो भी शत्रु हमारा सामना करेंगे, उन्हें हम तीनों मिलकर मारेंगे। जब संग्रामभूमिमें मेरा और तुम्हारा साथ होगा और कृतवर्मा भी तुम्हारी रक्षा करेगा तो साक्षात् इन्द्र भी हमारे

पराक्रमको सहन नहीं कर सकेगा। भैया ! कृतवर्मा और मैं पाण्डवोंको युद्धमें परास्त किये बिना कभी पीछे पाँव नहीं रखेंगे। या तो हम संग्रामभूमिमें पाण्डवोंके सहित क्रोधानुर पाञ्चालोंका संहार करके ही लौटेंगे या वहाँ प्राणोंकी बलि देकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कल हम पूरे उद्योगसे संग्राममें तुम्हारी सहायता करेंगे।

मामा कृपाचार्यजीके इस प्रकार हितको बात कहनेपर अश्वत्थामाने श्रोयते आँखें लाल करके कहा, 'जो पुरुष दुखी है, क्रोधमें मरा हुआ है, किसी अर्थके चिन्तनमें लगा हुआ है अथवा किसी कार्यसिद्धिकी उधेड़-बुनमें व्यस्त है, उसे नौद कैसे आ सकती है। आप विचार कीजिये, आज ये चारों बातें मुझे घेरे हुए हैं। मेरी नौदको तो क्रोधने ही हराम कर दिया है। इन परिस्थितियों जिस प्रकार मेरे पिताजीका वध किया है, यह बात रात-दिन मेरे हृदयको जलाती रहती है। उसके कारण मुझे तनिक भी चैन नहीं है। आपने तो यह सब प्रत्यक्ष ही देखा था। उससे हर समय मेरे मर्मस्थानोंमें पीडा होती रहती है। हाय ! मेरे-जैसा ध्ववित इम लोकमें एक मुहूर्त भी किस प्रकार जी रहा है। मैंने पाञ्चालोंके मूलसे 'द्रोण मारे गये' यह शब्द सुना था। इसलिये अब मैं धृष्टद्युम्नको मारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राजा दुर्योधनकी जंघाएँ टूट गयीं। उनकी ये दुःखमरी बातें सुनकर ऐसा कौन कठोरचित्त है, जिसकी आँखोंसे आँसू नहीं निकलेंगे ? मेरे जीवित रहते मेरी मित्रमण्डलीकी ऐसी बुद्धि शून्य है, इससे मेरा शोक बहुत ही बढ़ गया है। आज-कल मेरा मन एकतार होकर इसी उधेड़-बुनमें लगा रहता है। ऐसी स्थितिमें मुझे नौद कैसे आ सकती है ? और सुख भी कैसे मिल सकता है ? जिस समय दूतोंने मुझे मित्रोंकी पराजय और पाण्डवोंकी विजयका संवाद सुनाया था उसी समय मेरे हृदयमें आग-सी लग गयी थी। इसलिये मैं तो आज ही सोये हुए शत्रुओंका संहार करके विश्राम लूँगा और तभी निश्चिन्त होकर सोऊँगा।'

कृपाचार्यने कहा—अश्वत्थामा ! मेरा विचार है कि जिस मनुष्यकी बुद्धि ठीक नहीं है और इन्द्रियोंपर जिसका कब्ज नहीं है, वह धर्म और अर्थको पूरी तरहसे नहीं जान सकता। इसी प्रकार मेधावी होनेपर भी जिसने विनय नहीं सीखा, वह भी धर्म और अर्थका निर्णय कुछ नहीं समझ सकता। मूर्ख घोड़ा बहुत समयतक पण्डितोंकी सेवामें रहनेपर भी धर्मका रहस्य नहीं जान सकता, जिस प्रकार करछो दालका स्वाद नहीं चल सकता; किन्तु जैसे जीम दालका स्वाद तुरन्त जान लेती है, वैसे ही बुद्धिमान् पुरुष एक मुहूर्त भी पण्डितोंके पास रहकर तत्काल धर्मको पहचान

लेता है। जो पुरुष धर्मश्रवणकी इच्छावाला, बुद्धिमान् और संयतेन्द्रिय होता है वह सब शास्त्रोंको समझ लेता है। परंतु जो दुरात्मा और पापी मनुष्य बतलाये हुए अच्छे कामको छोड़कर दुःखरूप फल देनेवाले कर्मोंको किया करता है, उसे किसी प्रकार उस कर्मसे नहीं रोका जा सकता। जो सनाय होता है, उसको सुहृद्गण ऐसे कर्म करनेसे रोका करते हैं। पर उसके प्रारब्धमें यदि सुख मिलना होता है तो वह उस कर्मसे एक जाता है, नहीं तो नहीं। जिस प्रकार विक्षिप्तचित्त पुरुषको भला-बुरा कहकर काबूमें किया जाता है, उसी प्रकार सुहृद्गण भी समझा-बुझाकर और डांट-उपटकर उसे यशमें कर सकते हैं; नहीं तो वह यशमें नहीं आ सकता और उसे दुःख ही उठाना पड़ता है। तात ! तुम भी मनको काबूमें करके उसे कल्याणसाधनमें लगाओ और मेरी बात मानो, जिससे तुम्हें पश्चात्ताप न करना पड़े। जो सोये हुए हों, जिन्होंने शस्त्र रख दिये हों, रथ और घोड़े खोल दिये हों, जो 'मैं आपका ही हूँ' ऐसा कह रहे हों, जो शरणागत हों, जिनके बाल खुले हुए हों और जिनके वाहन नष्ट हो गये हों, लोकमें उन लोगोंका वध करना धर्मतः अच्छा नहीं समझा जाता। इस समय रात्रिमें सब पाञ्चालवीर निश्चिन्ततापूर्वक कवच उतारकर निद्रामें अचेत पड़े होंगे। जो पुरुष उनसे इस स्थितिमें द्रोह करेगा, वह अवश्य ही बिना नीकाके अगाध नरकमें डूब जायगा। लोकमें तुम समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ कहे जाते हो। अभीतक संसारमें तुम्हारा कोई छोटे-से-छोटा दोष भी देखनेमें नहीं आया। तुम सूर्यके

समान तेजस्वी हो। अतः कल जब सूर्य उदित हो तो सब प्राणियोंके सामने अपने शत्रुओंको संग्राममें परास्त करना।

अश्वत्थामा बोला—नामाजी ! आप जैसा कहते हैं, निःसंदेह वह ठीक ही है। परंतु इस धर्ममर्यादाके तो पाण्डवोंने पहले ही संकड़ों टुकड़े कर डाले हैं। धृष्टद्युम्नने प्रत्यक्ष ही आपके और समस्त राजाओंके सामने मेरे शस्त्रहीन पिताजीका वध किया था। रथियोंमें श्रेष्ठ कर्णको जब उनका पहिया फँस गया था और वे चड़े संकटमें पड़ गये थे, उसी समय अर्जुनने मार डाला था। भीष्मपितामहको भी शिखण्डीकी ओट लेकर अर्जुनने उसी समय मारा था, जब उन्होंने शस्त्र डाल दिये थे और वे सर्वथा निरायुध हो गये थे। वीरवर भूरिश्रवा तो रणक्षेत्रमें अनशन-व्रत लेकर बैठ गये थे; परंतु सात्यकिने सब राजाओंके चिल्लाते रहनेपर भी इसी स्थितिमें उन्हें मार डाला। महाराज दुर्योधन भी भीमसेनके साथ गदामुद्धमें भिड़कर सब राजाओंके सामने अधर्मपूर्वक ही गिराये गये हैं। इसलिये भले ही मुझे फौट-पतंगोंकी योनिमें जाना पड़े, मैं भी अपने पिताजीका वध करनेवाले इन पाञ्चालोंको रातमें सोते हुए ही मार डालूंगा। मैंने जो काम करनेका विचार किया है, उसके लिये मुझे दंडो उतावली हो रही है। इस जल्दबाजीमें मुझे नौद फँसे आ सकती है और चैन भी कैसे पड़ सकता है ?' संसारमें न तो कोई ऐसा पुरुष जन्मा है और न जन्मेगा ही, जो पाञ्चालोंके वधके लिये किये हुए मेरे इस विचारको बदल सके।

अश्वत्थामाका श्रीमहादेवजीपर प्रहार, उसका पराभव और फिर आत्मसमर्पण करके उनसे खड्ग प्राप्त करना

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! कृपाचार्यजैसे ऐसा कहकर द्रोणपुत्र अकेला ही अपने घोड़ोंको जोतकर शत्रुओंपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने लगा। तब उससे कृपाचार्य और कृतवर्मानि पूछा, 'तुम रथ किसलिये तैयार कर रहे हो, तुम्हारा क्या करनेका विचार है ? हम भी तो तुम्हारे साथ ही हैं और सुख-दुःखमें तुम्हारे साथ ही रहेंगे।' यह सुनकर अश्वत्थामाने जो कुछ वह करना चाहता था, उन्हें साफ-साफ सुना दिया। वह बोला, 'धृष्टद्युम्नने मेरे पिताजीको उस स्थितिमें मारा था, जब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिये थे। अतः आज उस पापी पाञ्चालपुत्रको मैं भी उसी तरह पापकर्म करके कवचहीन अवस्थामें माँहूँगा। मेरा यही विचार है कि उसे शास्त्रोंके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोक नहीं

मिलने चाहिये। आप दोनों भी जल्दी ही कवच धारण कर लें, खड्ग तथा धनुष लेकर तैयार हो जायें और मेरे साथ रहकर अवसरकी प्रतीक्षा करें।'

ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथपर सवार हुआ और शत्रुओंकी ओर चल दिया। उसके पीछे-पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चले। यह रात्रिमें ही, जब कि सब लोग सोये हुए थे, पाण्डवोंके शिविरमें पहुँचा और उसके द्वारपर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ उसने चन्द्रमा और सूर्यके संमान तेजस्वी एक विशालफलय पुरुषको दरवाजेपर खड़ा देखा। उस महापुरुषको देखकर शरीरमें रोमाञ्च ही जाता था। वह व्याघ्रचर्म धारण किये था, ऊपरसे मृगचर्म ओढ़े था तथा सर्पोंका यज्ञोपवीत पहने हुए था। उसकी विशाल भ्रजाओंमें



तरह-तरहके शस्त्र सुगोभित थे, बाजूबंदोंके स्थानमें बड़े-बड़े सपं बंधे हुए थे तथा उसके मुखसे अग्निकी ज्वालाएँ निकल रही थीं। उसके मुख, नाक, कान और हजारी नेत्रोंसे भी बड़ी-बड़ी लपटें निकल रही थीं। उसके तेजकी किरणोंसे शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले सैकड़ों-हजारों विष्णु प्रकट हो जाते थे।

सामन लोकोको भयभीत करनेवाले उस अद्भुत पुरुषको देखकर भी अश्वत्थामा घबराया नहीं, बल्कि उसपर अनेको दिव्य अस्त्रोंकी वर्षा-सी करने लगा। वह देव अश्वत्थामाके छोड़े हुए समस्त शस्त्रोंको निगल गया। यह देखकर उसने एक अग्निसे समान देवोप्यमान रथसहित छोड़े। परंतु वह भी उससे टकराकर टूट गयी। तब अश्वत्थामाने उसपर एक घमघमाती हुई तलवार चलायी। वह भी उसके शरीरमें लीन हो गयी। इसपर उसने कुपित होकर एक गदा छोड़ी, किंतु वह उसे भी लीन गया।

इस प्रकार जब अश्वत्थामाके सब शस्त्र समाप्त हो गये तो उसने इधर-उधर दृष्टि डाली। इस समय उसने देखा कि सारा आकाश विष्णुओंसे भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्थामा यह अत्यन्त अद्भुत दृश्य देखकर मड़ा ही दुष्टी हुआ और आवायं कृपके घचन घाद करके कहने लगा, 'जो पुरुष अप्रिय किंतु हितकी बात कहनेवाले अपने मुहूदोंकी सील

नहीं सुनता, यह मेरी ही तरह आपत्तिमें पड़कर शोक करता है। जो मूर्ख शास्त्र जाननेवालोंकी बातका तिरस्कार करके युद्धमें प्रवृत्त होता है, वह धर्ममार्गसे भ्रष्ट होकर कुमार्गमें जानेसे उलटे मुहूदों खाता है। मनुष्यको गो, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, भूख, अंधे, सोये हुए, डरे हुए, नौदसे उठे हुए, मतवाले, उमस और असावधान पुरुषोंपर हथियार नहीं चलाना चाहिये। गुरुजनोने पहलेहीसे सब पुरुषोंको ऐसी शिक्षा दे रखी है। किंतु मैं उस शास्त्रीय समातन मार्गका उल्लङ्घन करके उलटे रास्तेसे चलने लगा था। इसीसे इस घोर आपत्तिमें पड़ गया हूँ। जब मनुष्य किसी कामको आरम्भ करके भयके कारण उसे बीचहीमें छोड़ देता है तो बुद्धिमान् लोग इसे उसकी मूर्खता ही कहते हैं। इस समय इस कामको करते हुए मेरे आगे भी ऐसा ही भय उपस्थित हो गया है। यों तो द्रोणपुत्र किसी प्रकार युद्धसे पीछे हटनेवाला नहीं है। परंतु यह महामृत तो मेरे आगे विघाताके दण्डके समान आकर लड़ा हो गया है। मैं बहुत सोचनेपर भी इसे कुछ समझ नहीं पाता हूँ। निरवयव ही मेरी बुद्धि जो अधमसे क्लृप्तित हो गयी है, उसका दमन करनेके लिये ही यह भयंकर परिणाम सामने आया है। निःसंदेह इस समय मुझे जो युद्धसे हटना पड़ रहा है, वह देवका ही विधान है। सबकुछ देवकी अनुकूलताके बिना आरम्भ किया हुआ मनुष्यका कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अतः अब मैं भगवान् शंकरकी शरण लेता हूँ; जो जटानूटधारी, देवताओंके भी बन्दनीय, उमापति, सर्व-पापापहारी और त्रिशूल धारण करनेवाले हैं, ये ही इस भयानक देवी विष्णुको नष्ट करेंगे।

ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रथसे उतर पड़ा और देवाधिदेव श्रीमहादेवजीके शरणगान होकर इस प्रकार स्तुति करने लगा, 'आप उग्र हैं, अचल हैं, ब्रह्माण्डमय हैं, रड हैं, शर्व हैं, सकल विद्याओंके अधीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, परवतपर शयन करनेवाले हैं, वरदायक हैं, देव हैं, संसारको उत्पन्न करनेवाले हैं, जगदीश्वर हैं, नीलकण्ठ हैं, अजन्मा हैं, शुक हैं, दशयज्ञका विनाश करनेवाले हैं, सर्वसंहारक हैं, विश्वरूप हैं, भयानक नेत्रोंवाले हैं, बहुरूप हैं, उमापति हैं, श्मशानमें निवास करनेवाले हैं, गर्विते हैं, महान् गणाध्यक्ष हैं, व्यापक हैं, सद्वाङ्म (साठका पाया) धारण करनेवाले हैं। आप रड-नामसे प्रसिद्ध हैं, आपके मस्तकपर जटा सुगोभित है, आप ब्रह्मचारी हैं और त्रिपुरामुरका वध करनेवाले हैं। मैं अत्यन्त शूद्र हृदयसे आत्मसमर्पण करके आपका यजन करता हूँ। सभीने आपकी स्तुति की है, सभीके आप स्तुत्य हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं। आप मरतोंके सभी

संकल्पोंको पूर्ण करनेवाले हैं, गजराजके चर्मसे सुशोभित हैं, रक्तवर्ण हैं, नीलप्रीव हैं, असह्य हैं, शत्रुओंके लिये दुर्जय हैं, इन्द्र और ब्रह्माकी भी रचना करनेवाले हैं, साक्षात् परब्रह्म हैं, व्रतधारी हैं, तपोनिष्ठ हैं, अनन्त हैं, तपस्विषोके आश्रय हैं, अनेक रूप हैं, गणपति हैं, त्रिनयन हैं, अपने पार्वदोंको प्रिय हैं, घनेश्वर हैं, पृथ्वीके मुखस्वरूप हैं, पार्वतीजीके प्राणेश्वर हैं, स्वामिकार्तिकेयके पिता हैं, पीतवर्ण हैं, वृषवाहन हैं, दिगम्बर हैं। आपका वेप बड़ा ही उग्र है; आप पार्वतीजीको विभूषित करनेमें तत्पर हैं, ब्रह्मादिसे श्रेष्ठ हैं, परात्पर हैं तथा आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप उत्तम धनुष धारण करनेवाले हैं, सम्पूर्ण दिशाओंको अन्तिम सीमा हैं, सब देशोंके रक्षक हैं, सुवर्णमय कवच धारण करनेवाले हैं, आपका स्वरूप दिव्य है तथा आप अपने नस्तकपर आभूषणके रूपमें चन्द्रकलाको धारण करनेवाले हैं। मैं अत्यन्त समाहित होकर आपकी शरण लेता हूँ। यदि आज मैं इस दुस्तर आपत्तिके पार हो गया तो समस्त भूतोंके संघातरूप इस शरीरकी वलि देकर आपका यजन करूँगा।'

इस प्रकार अश्वत्यामाका दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने एक सुवर्णमयी वेदी प्रकट हुई। उस वेदीमें अग्नि प्रज्वलित हो गयी। उससे बहुत-से गण प्रकट हुए। उनके मुख और नेत्र देदीप्यमान थे; वे अनेकों सिर, पैर और हाथोंवाले थे; उनकी भुजाओंमें तरह-तरहके रत्नजटित आभूषण सुशोभित थे तथा वे ऊपरकी ओर हाथ उठाये हुए थे। उनके शरीर द्वीप और पर्वतोंके समान विशाल थे। वे सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह और नक्षत्रोंके सहित सम्पूर्ण द्युलोकको धराशायी करनेकी शक्ति रखते थे तथा उनमें जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भूज-चारों प्रकारके प्राणियोंका संहार करनेकी शक्ति थी। उन्हें किसी प्रकारका भय नहीं था, वे इच्छानुसार आचरण करनेवाले थे तथा तीनों लोकोंके ईश्वरोंके भी ईश्वर थे। वे सर्वदा आनन्दमग्न रहते थे, वाणीके अधीश्वर थे, मत्सरहीन थे तथा ऐश्वर्य पाकर भी उन्हें अभिमान नहीं था। उनके अद्भुत कर्मसे सर्वदा भगवान् शंकर भी चकित रहते थे तथा वे मन, वाणी और कर्माद्वारा सर्वदा उन्हींकी आराधना करते थे। इससे भगवान् शंकर भी सर्वदा अपने औरस पुत्रोंके समान उनकी रक्षा करते थे।

ये सब भूत बड़े ही भयंकर थे। इनको देखनेसे तीनों लोक भयभीत हो सकते थे। तथापि महाबली अश्वत्यामा इन्हें देखकर डरा नहीं। अब उसने स्वयं अपने-आपको ही वलिरूपसे समर्पित करना चाहा। इस कर्मको सम्पन्न करनेके लिये उसने धनुषकी समिधा, वाणोंको दर्म और अपने शरीरको ही हवि बनाया। उसने सोमदेवताका मन्त्र पढ़कर अग्निमें

अपनी आहुति देनी चाही। उस समय वह हाथ जोड़कर भगवान् शंकरकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, 'विश्वामन् ! इस आपत्तिके समय आपके प्रति अत्यन्त भक्तिभावसे मैं समाहित होकर यह भेंट समर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिये। समस्त भूत आपमें स्थित हैं, आप सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित हैं तथा आपहीमें मुख्य-मुख्य गुणोंकी एकता होती है। विभो ! आप समस्त भूतोंके आश्रय हैं; यदि इन शत्रुओंका परामव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप हविष्यरूपसे अर्पण किये हुए इस शरीरको स्वीकार कीजिये।'

द्रोणपुत्र अश्वत्यामा ऐसा कह उस अग्निसे देदीप्यमान वेदीपर चढ़ गया और अपने प्राणोंका मोह छोड़कर आगके बीचमें आसन लगाकर बैठ गया। उसे हविरूपसे ऊर्ध्वबाहु होकर निश्चेष्ट बैठे देखकर भगवान् शंकरने हँसकर कहा, 'श्रीकृष्णने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणीके द्वारा मेरी प्रयोजित आराधना की है। इसलिये उनसे बड़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। पाञ्चालोंकी रक्षा करके भी मैंने उन्हींका सम्मान किया है; किन्तु फालग्वश अब ये निस्तेज हो गये हैं, अब



इनका जीवन शेष नहीं है।' ऐसा कहकर भगवान् शंकरने अश्वत्यामाको एक तेज तलवार दी और अपने आपको उसीके शरीरमें लीन कर दिया। इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर अश्वत्यामा अत्यन्त तेजस्वी हो गया।

अश्वत्थामाके द्वारा पाण्डव और पाञ्चाल वीरोंका संहार

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! अब द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने शिविरमें प्रवेश किया तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा बरवाजेपर लड़े हो गये । उन्हें अपना साथ देनेके लिये तैयार देखकर अश्वत्थामाको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनसे धीरेसे कहा, 'आप दोनों यदि तैयार हो जायें तो सभी क्षत्रियोंका संहार कर सकते हैं, फिर निद्रामें पड़े हुए इन बचे-खुचे योद्धाओंकी तो बात ही क्या है ? मैं शिविरके भीतर जाऊँगा और कालके समान मार-काट मचा दूँगा । आपलोग ऐसा करें, जिससे कोई भी आपके हाथोंसे जीवित बचकर न जा सके ।'

ऐसा कहकर द्रोणपुत्र पाण्डवोंके उस विशाल शिविरमें द्वारसे न जाकर बीचहीसे घुस गया । उसे अपने लक्ष्य घुट्ट्युम्नके तंबूका पता था, इसलिये वह चुपचाप वहाँ पहुँच गया । यहाँ उसने देखा कि सब योद्धा युद्धमें थक जानेके कारण अचेत होकर सोये पड़े हैं । उनके पास ही एक देशमी शय्यापर उसे घुट्ट्युम्न सोता दिखायी दिया । तब अश्वत्थामाने उसे पंरसे ठुकराकर जगाया । पंर लगते ही रथोन्मत्त घुट्ट्युम्न जग पड़ा और महारथी अश्वत्थामाको आया देख उषों ही वह पलंगसे उठने लगा कि उस वीरने उसके बाल

पकड़कर पृथ्वीपर पटक दिया । इस समय घुट्ट्युम्न भय और निद्रासे दबा हुआ था, साथ ही अश्वत्थामाने उसे जोरकी पटक भी लगायी थी; इसलिये वह निरुपाय हो गया । अश्वत्थामाने उसकी छाती और गलेपर दोनों घुटने टेक दिये । घुट्ट्युम्न बहुतेरा चिल्लाया और छटपटाय़ा, किंतु अश्वत्थामा उसे पशुकी तरह पीटता रहा । अन्तमें उसने अश्वत्थामाको नखोंसे बकौटते हुए लड़लड़ती जवानमें कहा, 'आचार्यपुत्र ! ध्ययं देरी मत करो, मुझे हथियारसे मार डालो ।' उसने इतना कहा ही था कि अश्वत्थामाने उसे जोरसे दबाया और उसकी अस्पष्ट याणी सुनकर कहा, 'रे कुसकुलंक ! अपने आचार्यको हत्या करनेवालोंको पुण्यलोक नहीं मिल सकता । इसलिये तुम्हें शस्त्रसे मारना उचित नहीं है ।' ऐसा कहकर उसने कुपित होकर अपने पैरोंकी चोटोंसे घुट्ट्युम्नके मर्मस्थानोंपर प्रहार किया । इस समय घुट्ट्युम्नकी चिल्लाहटसे घरकी स्त्रियाँ और रखवाले भी जग पड़े । उन्होंने एक अलौकिक पराक्रमवाले पुरपको घुट्ट्युम्नपर प्रहार करते देखकर उसे कोई भूत समझा । इसलिये भयके कारण उनमेंसे कोई भी बोल न सका ।

अश्वत्थामाने घुट्ट्युम्नको इसी प्रकार पशुकी तरह पीट-पीटकर मार डाला । इसके बाद वह उस तंबूसे बाहर आया और रथपर चढ़कर सारी छावनीमें चक्कर लगाने लगा । पाञ्चालराज घुट्ट्युम्नको मरा देखकर उसकी रानियाँ और रखवाले शोकाकुल होकर विलाप करने लगे । उनके कोलाहलसे आस-यासके क्षत्रिय घोर चौंकर कहने लगे, 'क्या हुआ ? क्या हुआ ?' तब स्त्रियोंने बड़ी दीन वाणीसे कहा, 'अरे ! जल्दी दौड़ो ! जल्दी दौड़ो ! हमारी तो समझमें नहीं आता यह कोई राक्षस है या मनुष्य है । देखो, इसने पाञ्चालराजको मार डाला और अब रथपर चढ़कर इधर-उधर घूम रहा है ।' यह सुनकर उन योद्धाओंने एक साथ अश्वत्थामाको घेर लिया । किंतु पास आतेही अश्वत्थामाने उन्हें हद्दास्त्रसे मार डाला ।

इसके बाद उसने बराबरके तंबूमें उत्तमौजाको पलंगपर सोते देखा । उसके भी कण्ठ और छातीको उसने पंरोंसे दबा लिया । उत्तमौजा चिल्लाने लगा, किंतु अश्वत्थामाने उसे भी पशुकी तरह पीट-पीटकर मार डाला । युधामन्युने समझा कि उत्तमौजाको किसी राक्षसने मारा है । इसलिये वह गदा लेकर दौड़ा और उससे अश्वत्थामाकी छातीपर



चोट की। अश्वत्थामाने लपककर उसे पकड़ लिया और फिर पृथ्वीपर पटक दिया। युधामन्युने छूटनेके लिये बहुतेरे हाथ-पंर पटके, किंतु अश्वत्थामाने उसे भी पशुकी तरह मार डाला।

इसी प्रकार उसने नौदमें पड़े हुए अन्य महारथियोंपर भी आक्रमण किया। वे सब मयसे कांपने लगे, किंतु अश्वत्थामाने उन सभीको तलवारसे मौतके घाट उतार दिया। शिविरके विभिन्न भागोंमें उसने मध्यम श्रेणीके सैनिकोंको भी निद्रामें बेहोश देला और उन सबको भी एक क्षणमें ही तलवारसे तहस-नहस कर डाला। इसी तरह अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथियोंको उस तलवारकी भेंट चढ़ा दिया। इससे उसका सारा शरीर खूनमें लयपय हो गया और वह साक्षात् कालके समान दिवायी देने लगा। उस समय जिन योद्धाओंकी नींद टूटती थी, वे ही अश्वत्थामाका शब्द सुनकर भौंचक्केसे रह जाते थे और उसे राक्षस समझकर आँखें मूंद लेते थे। इस प्रकार भयंकर रूप धारण किये वह सारी छावनीमें चक्कर लगा रहा था।

जब द्रौपदीके पुत्रोंने घृष्टद्युम्नके मारे जानेका समाचार सुना तो वे निर्भय होकर अश्वत्थामापर बाण बरसाने लगे। अश्वत्थामा अपनी दिव्य तलवार लेकर उनपर दूट पड़ा और उससे प्रतिविन्ध्यकी फोख फाड़ डाली। इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। सुतसोमने पहले तो प्रासते चोट की। फिर वह भी तलवार लेकर द्रोणपुत्रकी ओर चला। अश्वत्थामाने तलवारके सहित उसकी वह भुजा काट डाली और फिर उसकी पसलीपर प्रहार किया। इससे हृदय फट जानेके कारण वह पृथ्वीपर गिर गया। इसी समय नकुलके पुत्र शतानीकने एक रथका पहिया उठाकर बड़े जोरसे अश्वत्थामाकी छातीपर मारा। अश्वत्थामाने भी तुरंत ही उसपर चोट की। उससे वह व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। फिर अश्वत्थामाने उसका सिर काट डाला। अब श्रुतकर्मा परिध लेकर अश्वत्थामाकी ओर चला और उसके बायें गालपर चोट की। किंतु अश्वत्थामाने अपनी तीखी तलवारसे उसके मुंहपर ऐसा वार किया कि जिससे उसका चेहरा विगड़ गया और वह बेहोश होकर पृथ्वीपर जा पड़ा। उसका शब्द सुनकर महारथी श्रुतकीर्ति अश्वत्थामाके सामने आया और उसपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। किंतु अश्वत्थामाने उसकी बाणवर्षाको डालपर रोक लिया और उसके सिरको धड़से अलग कर दिया।

इसके बाद उसने तरह-तरहके शस्त्रोंसे शिखण्डी और प्रमद्वक वीरोंको मारना आरम्भ किया। उसने एक बाणसे शिखण्डीकी भ्रुकुटियोंके बीचमें चोट की और फिर पास

जाकर तलवारके एक ही हाथसे उसके दो टुकड़े कर दिये। इस प्रकार शिखण्डीको मारकर वह अत्यन्त क्रोधमें भर गया और बड़े वेगसे प्रमद्वकांपर दूट पड़ा। राजा विराटकी जो कुछ सेना बची थी, उसे उसने एकदम कुचल डाला तथा राजा द्रुपदके पुत्र, पौत्र और सम्बन्धियोंको खोज-खोजकर मौतके घाट उतार दिया।

अश्वत्थामाका सिंहनाद सुनकर पाण्डवोंकी सेनामें सँकड़ों-हजारों वीर जाग पड़े। उसने उनमेंसे किसीके पैर, किसीकी जाँघें और किसीकी पसलियाँ काट डालीं। उन सभीको बहुत अधिक कुचल दिया गया था, इससे वे भयानक चौत्कार कर रहे थे। इसी प्रकार घोड़े और हाथियोंके विगड़ जानेसे भी अनेकों योद्धा पिस गये थे। उन सबकी लोयोंसे सारी रणभूमि पट गयी थी। धायल वीर 'यह क्या है? कौन है? किसका शब्द है? यह क्या कर डाला?' इस प्रकार चिल्ला रहे थे। उनके लिये अश्वत्थामा प्राणा-न्तक फालके समान हो रहा था। पाण्डव और सृञ्जय वीरोंमें जो शस्त्र और कवचोंसे रहित थे और जिन्होंने कवच धारण कर लिये थे, उन सभीको अश्वत्थामाने यमलोक भेज दिया। जो लोग नौदके कारण अंधे और अचेत-ते हो रहे थे, वे उसके शब्दसे चौंककर उछल पड़े, किंतु फिर भयभीत होकर जहाँ-तहाँ छिप गये। उनके मारे उनकी घिग्घी बँध गयी और वे एक-दूसरेसे लिपटकर बँठ गये।

इसके बाद अश्वत्थामा फिर अपने रथपर सवार हुआ और हाथमें धनुष लेकर दूसरे योद्धाओंको यमराजके हवाले करने लगा। फिर वह हाथमें ढाल-तलवार लेकर उस सारी छावनीमें चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामाका सिंहनाद सुनकर योद्धालोग चौंक पड़ते थे; किंतु निद्रा और मयसे व्याकुल होनेके कारण अचेत-ते होकर इधर-उधर भाग जाते थे। उनमेंसे कोई बुरी तरह चिल्लाने लगते थे और कोई अनेकों ऊटपटांग बातें करने लगते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे। इसलिये आपसमें एक-दूसरेको पहचान भी नहीं पाते थे। कोई इधर-उधर भागनेमें थककर गिर गये थे। किन्हींको चक्कर आ रहा था। किन्हींका मल-मूत्र निकल गया था। हाथी और घोड़े रस्से तुड़ाकर सब ओर गड़बड़ी करते दौड़ रहे थे। कोई उनके मारे पृथ्वीपर पड़कर छिप रहते थे; किंतु हाथी-घोड़े उन्हें पैरोंसे खूँद डालते थे। इस प्रकार चड़ी ही गड़बड़ी मची हुई थी। लोगोंके इधर-उधर दौड़नेसे बड़ी धूल छा गयी, जिससे उस रात्रिके समय शिविरमें दूना अन्धकार हो गया। उस समय पिता पुत्रोंकी और भाई भाइयोंको नहीं पहचान पाते थे। हाथी हाथियोंपर और बिना सवारके घोड़े घोड़ोंपर दूट पड़े तथा एक

दूसरेपर चोट करते घायल होकर पुष्पोपर सोटने लगे । बहुत-से लोग निद्रामें अवैत पड़े थे, वे अँधेरेमें उठकर आपसमें ही आपात करके एक दूसरेको गिराने लगे । बँववसा उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी । वे 'हा तात ! हा पुत्र !' इस प्रकार चिल्लाते हुए अपने बन्धु-यात्रियोंको छोड़कर द्धर-उभर भागने लगे । बहुत-से तो हाय ! हाय ! करते पुष्पोपर गिर गये ।

अनेकों वीर पन्ध और कवचोंके बिना ही शिबिरसे बाहर जाना चाहते थे । उनके बाल धुले हुए थे और वे हाय जोड़े भयसे थर-थर काँप रहे थे; तो भी कृपाचार्य और कृतवर्माने शिबिरसे बाहर निकलनेपर किसीको जीवित नहीं छोड़ा । इन दोनोंने अश्वत्थामाको प्रमत्त करनेके लिये शिबिरके नील ओर आग लगा दी । इससे सारी छावनीमें उजाला हो गया और उसकी सहायतासे अश्वत्थामा हाथमें तलवार लेकर सब ओर घूमने लगा । इस समय उजाने अपने सामने आनेवाले वीर पीठ दिखाकर भागनेवाले दोनों ही प्रकारके योद्धाओंको तनवारके घाट उतार दिया । किन्हीं-किन्हींको उमने निलके पीछेके समान धीपहीमे धो करके गिरा दिया । इसी प्रकार उमने किन्हींके शतवर्गहित भुजदण्डोंको, किन्हींके मिरोंको, किन्हींकी जंघाओंको, किन्हींके पैरोंको, किन्हींकी पीठको और किन्हींकी कमलियोंको तनवारसे उड़ा दिया । इसी प्रकार उमने किसीका भूँट फेर दिया, किसीको बर्बाद कर डाला, किन्हींके कंधेर चोट करके उनका मिर गगैरेमें धुँसटू किया । इस प्रकार वह अनेकों वीरोंका संहार करता शिबिरमें घूमने लगा ।

उम समय अन्द्रकारके कारण रात बड़ी भयावनी हो रही थी । हजारों मरे और अधमरे मनुष्योंमे तथा अनेकों हाथी-घोड़ोंमे बड़ी हुई दुर्भेदीके देमकर दृश्य कर उभरा था । लोग हड़कान करके हुए आसममें बह रहे थे, 'मार्त ! दास पाण्डवोंके नाम न रहनेमे ही हमारी यह दुर्भेदी हुई है । अर्जुनको तो कुनुर, मन्धर, दल और राजस-कीर्ति भी नहीं बँत सकता; बर्बाद सायण् श्रीकृष्ण उनके मरूट हैं । वो दुर्भेदी दाह बहू मारु कौनकरल माल ही मर । मारी मुनि कृष्णने दाह हो मारी की । इन्हींमे एक कर्ण ही बू मन्त्रक दून दह मारी । अश्वत्थामाने कर्णमें मरकर ठेमे

हजारों वीरोंको मार डाला, जो किसी प्रकार प्राण बचातेके प्रयत्नमें लगे हुए थे, एकदम चबराये हुए थे और जिनमें तनिक भी उरसाह नहीं था । जो एक दूसरेसे निपटकर पड़ गये थे, शिबिर छोड़कर भाग रहे थे, छिपे हुए थे अथवा किसी प्रकार राई रहे थे, उनमेमे भी किसीको उताने जीवित नहीं छोड़ा । जो लोग आगमें भूभते जाते थे और जो आपसमें ही मार-काट कर रहे थे, उन्हें भी उताने मगराजके हवाले कर दिया । राजन् ! इस प्रकार उम आधीरातके समय प्रोणपुत्रने पाण्डवोंको उम विशाल सेनाको घात-की-घातमें ममलोक पहुँचा दिया ।

वो पढते ही अश्वत्थामाने शिबिरसे बाहर आनेका विचार किया । उम समय मरुक्तमे तनकर वह तलवार इस प्रकार उमके हाथमे चिपक गयी थी कि मानो वह उसीका एक अङ्ग हो । इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वह कठोर काम करके अश्वत्थामा पित्तके ऋणमे मुक्त होकर गिरिबन्ध हुआ । यह छावनीमे बाहर आया और कृपाचार्य एवं कृतवर्माने मिलकर उन्हें प्रमत्ततापूर्वक अपनी सारी कर्तव्य मुताकर आनन्दित किया । वे भी अश्वत्थामाका ही प्रिय करनेमें लगे हुए थे । अतः उन्होंने भी यह मुताकर कि हमने यहाँ रहकर हजारों पाञ्चाल और मञ्जय वीरोंका संहार किया है, उमे प्रमत्त किया ।

राजा धृतराष्ट्र पृष्ठने हैं—राजन्व ! अश्वत्थामामो मरे पुत्रकी विजयके लिये ही कपूर बने हुए था । फिर उमने ऐसा महान् काम पहुँचे क्यों नहीं किया ?

मञ्जयने कहा—राजन् ! अश्वत्थामाको पाण्डव, श्रीकृष्ण और शार्ङ्गयके लडका रहता था । इसीमे धवतक यह ऐसा नहीं कर सका । इस समय उनके पास म रहनेमे ही उमने यह काम कर डाला ।

इसके बाद अश्वत्थामाने आचार्य कृप और कृतवर्माको मने लगाया और उमने उनका धिक्कनदन किया । फिर उमने इधमें मरकर कहा, 'मिने मयात पाञ्चालोंको, द्रौपदीके वीरों कुर्वीको और संश्राममे बँडे हुए मारी मलय एवं सांभक वीरोंकी मरुट कर डाला है । अब हमारा काम पूरा हो गया । इन्हींमे उहाँ राजा दुर्योधन हैं, उहाँ चलना करीये । यदि वे कीर्तिक ही नो उहाँ की पर मयापार मृना दिया जाय ।'

अश्वत्थामादिका दुर्योधनको सब समाचार सुनाना तथा दुर्योधनकी मृत्यु

सञ्जयने कहा—राजन् ! वे तीनों वीर सम्पूर्ण पाञ्चालवीरों और द्रौपदीके पुत्रोंको मारकर जहाँ राजा दुर्योधन मरणासन्न अवस्थामें पड़ा था, उस स्थानपर आये । उन्होंने जाकर देखा तो इस समय उसमें कुछ ही प्राण शेष था । वह जैसे-तैसे अपने प्राण बचाये हुए था । उसके मुखसे रक्तका वमन होता था तथा उसे चारों ओरसे अनेकों भेड़िये और दूसरे हिंस्र जीव घेरे हुए थे । वे सब उसे चट कर जाना चाहते थे और वह बड़ी कठिनाईसे उन्हें रोक रहा था । इस समय उसे बड़ी ही वेदना हो रही थी ।

दुर्योधनको इस प्रकार अनुचित रीतिसे पृथ्वीपर पड़े देखकर उन तीनों वीरोंको असह्य कष्ट हुआ और वे फूट-फूटकर रोने लगे । उन्होंने अपने हाथोंसे दुर्योधनके मुँहका खून पोंछा और फिर दीन होकर विलाप करने लगे ।

कृपाचार्यने कहा—हाय ! विधाताके लिये कोई भी काम कठिन नहीं है । आज ग्यारह अर्क्षाहिणी सेनाका स्वामी राजा दुर्योधन इस प्रकार खूनमें लयपथ हुआ पृथ्वीपर पड़ा है । महलोंमें जिस प्रकार महारानी शयन करती थीं, उसी प्रकार यह सोनेके पत्तरसे मड़ी हुई गदा वीर दुर्योधनके साथ सोयी हुई है । कालकी कुटिलता तो देखो—जो शत्रुसूदन सत्राट् किसी समय मूर्धाभिषिक्त राजाओंके आग-आगे चलता था, आज वही भूमिमें पड़ा धूल फाँक रहा है । जिसके आगे सँकड़ों राजा लोग भयसे तिर झुकते थे, वही आज वीरशय्यापर पड़ा हुआ है । पहले जिसे अनेकों ब्राह्मण अर्थप्राप्तिके लिये घेरे रहते थे, उसीको आज मांसके तीसरे भाँसाहारी प्राणियोंने घेर रक्खा है ।

अश्वत्थामा बोला—राजश्रेष्ठ ! आपको समस्त धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ कहा जाता था । आप साक्षात् भगवान् संकर्षणके शिष्य और युद्धमें कुबेरके समान थे, तो भी भीमसेनको किस प्रकार आपपर प्रहार करनेका अवसर मिल गया ? आप सब धर्मोंको जाननेवाले हैं । क्षुद्र और पापी भीमसेनने किस प्रकार आपको धोखेसे धायल कर दिया ? अवश्य ही कालकी गतिसे पार पाना बड़ा कठिन है । भीमसेनने आपको धर्म-युद्धके लिये बुलाया था, किंतु फिर अधर्मपूर्वक गदासे आपकी जाँघें तोड़ डालीं । इस प्रकार अधर्मसे मारकर जब भीमसेनने आपको ठुकराया, तब भी कृष्ण और युधिष्ठिरने उस क्षुद्रसे कुछ नहीं कहा ! धिक्कार है उन्हें ! भीमने आपको कपटसे गिराया है । इसलिये जबतक प्राणियोंकी स्थिति रहेगी, तबतक योद्धालोग उसकी निन्दा ही करेंगे । महर्षियोंने

क्षत्रियोंके लिये जो उत्तम गति बताया है, युद्धमें मारे जानेके कारण आपने वह प्राप्त कर ली है । राजन् ! आपके लिये मुझे चिन्ता नहीं है; मुझे तो आपके पिता और माता गान्धारीके लिये ही खेद है, जिनके सभी पुत्र कालके गालमें चले गये हैं । हाय ! अब वे भिखारी बनकर दर-दर भटकेंगे और हर समय उन्हें पुत्रोंका शोक सताता रहेगा । वृष्णिवंशी कृष्ण और द्रुपदबुद्धि अर्जुनको धिक्कार है, जिन्होंने बड़ा भारी धर्मसत्ताका अभिमान रखकर भी भीमसेनके मारते समय कोई रोक-टोक नहीं की । ये निलंजज पाण्डव भी किस प्रकार कहेंगे कि हमने ऐसे-ऐसे दुर्योधनको मारा था । गान्धारीनन्दन ! आप धन्य हैं, जो युद्धमें वीरगतिको प्राप्त हुए । महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा और मुझे धिक्कार है, जो आप-जैसे महाराजके साथ स्वर्ग नहीं सिधार रहे हैं । हम जो आपका अनुसरण नहीं कर रहे हैं—इससे यही जान पड़ता है कि एक दिन आपके सुकृतोंका स्मरण करते-करते हम यों ही मर जायेंगे, स्वर्ग या अर्ध—इनमेंसे कोई हमारे हाथ नहीं लगेगा । न जाने हमारा ऐसा कौन-सा कर्म है, जो हमें आपका साथ देनेसे रोक रहा है । तब तो निःसंदेह हमें वड़े दुःखसे इस पृथ्वीपर अपने दिन काटने पड़ेंगे । राजन् ! आपके न रहनेपर हमें शान्ति और सुख कैसे मिल सकते हैं ? आप स्वर्ग सिधार रहे हैं । वहाँ सब महारथियोंसे आपकी भेंट होगी ही । उन सबकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठताके अनुसार आप मेरी ओरसे पूजा करें । पहले आप समस्त धनुर्धरोंके ध्वजावृष आचार्यजोका पूजन करें और उन्हें सूचना दें कि आज अश्वत्थामाने धृष्टद्युम्नको मार डाला है । फिर महाराज बाह्लीक, महारथी जयद्रथ, तोमदत्त, भूरिश्रवा तथा और भी जो-जो वीर पहले स्वर्ग पहुँच चुके हैं, उनका मेरी ओरसे आलिङ्गन करें और उनसे कुशल पूछें ।

राजन् ! यदि आपमें कुछ प्राणशक्ति मौजूद हो तो मेरी एक बात चुनिये । इससे आपके कानोंकी बड़ा आनन्द मिलेगा । अब पाण्डवोंके पक्षमें वे पाँचों भाई, श्रीकृष्ण और सात्यकि—ये सात वीर बचे हैं और हमारी ओर मैं, कृतवर्मा और आचार्य कृप—ये तीन बाकी हैं । द्रौपदीके सब पुत्र, धृष्टद्युम्नके बच्चे तथा समस्त पाञ्चाल और युद्धसे बचे हुए मत्स्यवीरोंका सफाया कर दिया गया है । पाण्डवोंको जो बदला चुकाया गया है, उसपर ध्यान दीजिये । अब उनके भी बच्चे मार दिये गये हैं । आज उनके शिबिरमें

जितने योद्धा और हाथी-घोड़े थे, उन सभीको मैंने तहस-नहस कर दिया है। आज पापी धृष्टद्युम्नको भी मैंने पशुकी तरह पीट-पीटकर मार डाला है।

दुर्योधनने जब अश्वत्थामाको यह मनको प्यारी लगने-



वाली बात सुनी तो उसे कुछ चेत हो गया और वह कहने लगा, 'भाई! आज आचार्य कृप और कृतवर्माके सहित जो काम तुमने किया है वह तो भीष्म, कर्ण और तुम्हारे पिताजी भी नहीं कर सके। तुमने शिशुश्रेष्ठके सहित सेनापति धृष्ट-द्युम्नको मार डाला, इससे आज निरचय ही मैं अपनेको इन्द्रके समान समझता हूँ। तुम्हारा भला हो, अब स्वर्गमें ही हमारी-तुम्हारी भेंट होगी।' ऐसा कहकर मनस्वी दुर्योधन चूप हो गया और अपने मुहँदोंको दुःखमें छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिये। उसने स्वयं पुष्पधाम स्वर्गलोकमें प्रवेश किया और उसका शरीर पृथ्वीपर पड़ा रहा। राजन्! इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधनकी मृत्यु हुई। यह रणाङ्गणमें सबसे पहले गया था और सबसे पीछे शत्रुश्रेष्ठद्वारा मारा गया। मरनेसे पहले दुर्योधनने तीनों घोड़ोंको गले लगाया और उन्होंने भी उनका आलिङ्गन किया। अश्वत्थामाके मृत्युसे यह कर्ण-जनक संवाद सुनकर मैं शोककुल होकर दिन निकलते ही नगरमें चला आया। इस प्रकार आपहीकी छोटी सलाहसे यह कौरव और पाण्डवोंका भीषण संहार हुआ है। आपके पुत्रका स्वर्गवास होनेसे मैं अत्यन्त शोकातं हो गया हूँ। अब ध्यातजीकी कृपासे प्राप्त हुई मेरी दिव्यदृष्टि मट्ट हो गयी है।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! महाराज धृतराष्ट्र इस प्रकार पुत्रकी मृत्युका संवाद सुनकर एकदम चिन्तामें डूब गये और संदे-संदे गर्म श्वास लेने लगे।

राजा युधिष्ठिर और द्रौपदीका मृत पुत्रोंके लिये शोक तथा द्रौपदीकी प्रेरणासे भीमसेनका अश्वत्थामाको मारनेके लिये जाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—वह रात दोतनेपर धृष्ट-द्युम्नके सारथीने राजा युधिष्ठिरको शिविरमें सोये हुए घोड़ोंके संहारकी सूचना दी। उसने कहा, 'महाराज! राजा द्रुपदके पुत्रोंके सहित सब द्रौपदीपुत्र शिविरमें निरिचन्त होकर बेखबर सोये हुए थे। वे सभी मार डाले गये। आज रात्रिमें शूर कृतवर्मा, कृपाचार्य और पापी अश्वत्थामाने आपके सारे शिविरको मट्ट कर डाला है। इन्होंने प्राप्त, शक्ति और फरसोंसे हजारों योद्धा तथा हाथी-घोड़ोंको काटकर आपकी सेनाका संहार कर डाला है। कृतवर्मा कुछ व्यपचित था, इसलिये सारी सेनामेंसे एक मैं ही किसी प्रकार घबकर निकल आया हूँ।'

सारथीकी यह अमङ्गल वाणी सुनकर कुन्तीतन्त्र

युधिष्ठिर पुत्रशोकसे व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। उस समय सात्विक, भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेवने उन्हें सँभाला। चेत होनेपर वे विलाप करते हुए कहने लगे, 'हाय! हम तो शत्रुओंको जीत चुके थे, किन्तु आज उन्होंने हमें जीत लिया। हमने भाई, समययस्क, पिता, पुत्र, मित्र, बन्धु, मन्त्री और पौत्रोंकी हत्या करके तो जय प्राप्त की; किन्तु इस प्रकार जीतकर भी आज हम जीत लिये गये। कर्मा-कर्मा अनर्थ अर्थ-सा जान पड़ता है तथा अर्थ-सी विलापी देनेवाली वस्तु अनर्थके रूपमें परिणत हो जाती है। इसी प्रकार हमारी यह विजय पराजय-सी हो गयी है और शत्रुओंकी पराजय भी विजय-सी हो गयी। इस मनुष्यलोकमें प्रयाससे बढ़कर मनुष्यकी कोई और मृत्यु नहीं है। प्रयास मनुष्यकी

अर्थ सब प्रकार त्याग देने हैं तथा उसे अनर्थ सब ओरसे घेर लेते हैं। वह विद्या, तप, वैश्व और यश किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई व्यापारियोंका बेड़ा समुद्रको पार करके किसी छोटी-सी नदीमें डूब जाय, उसी प्रकार आज हमारे प्रमावसे ही ये इन्द्रके तुल्य राजाओंके पुत्र-पीत्र सहजहीमें मारे गये हैं। शत्रुओंने अमर्षवश जिन्हें सोते हुए ही मार डाला है वे तो निःसंदेह स्वर्ग सिंघार गये हैं। परंतु मुझे तो द्रौपदीकी चिन्ता है; क्योंकि जिस समय वह अपने भाइयों, पुत्रों और बड़े पिता पाञ्चालराज द्रुपदकी मृत्युओंका समाचार सुनेगी उस समय उनके शोकजनित दुःखको कैसे सह सकेगी? उसके हृदयमें तो आग-सी लग जायगी।

इस प्रकार अत्यन्त दीनतासे विलाप करते-करते वे नकुलसे कहने लगे—'भैया! तुम जाओ और मन्द-भागिनी द्रौपदीको उसके मातृपक्षकी स्त्रियोंके सहित यहां लीवा लाओ।' धर्मराजकी आज्ञा पाकर नकुल रथपर सवार हो उस डेरेकी ओर गया जहां पाञ्चालराजकी महिलाएँ और महारानी द्रौपदी थी। नकुलको भेजकर महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल सुहृदोंके सहित रोते-रोते उस स्थानपर गये, जहां उनके पुत्र मरे पड़े थे। उस मौग स्थानमें पहुँचकर उन्होंने अपने हृदयमें लयपय सुहृद् और सखाओंको पृथ्वीपर पड़े देखा। उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग कटे हुए थे और बहुतां के सिर भी काट लिये गये थे। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर बहुत ही खिन्न हुए और फूट-फूटकर रोने लगे। अपने पुत्र, पीत्र और मित्रोंकी संग्राममें मरे देखकर वे अत्यन्त दुःखानुर हो गये। उनकी आँखोंमें आँसुओंकी बाढ़-सी आ गयी, शरीर काँपने लगा और बार-बार मूच्छा आने लगी। तब उनके सुहृद्गण अत्यन्त उदास होकर उन्हें घोरज बंधाने लगे। इसी समय शोकाकुल द्रौपदीको रथमें लेकर वहाँ नकुल पहुँचा। वह उपप्लव्य नामक स्थानमें गयी हुई थी। जिस समय उसने अपने सब पुत्रोंको मारे जानेका अत्यन्त अशुभ समाचार सुना, वह तो बहुत ही दुखी हुई। उसका मुख शोकसे बिल्कुल फीका पड़ गया और वह राजा युधिष्ठिरके पास पहुँचकर पृथ्वीपर गिर पड़ी।

द्रौपदीको गिरते देख महापराक्रमी भीमसेनने लपककर अपनी दोनों भुजाओंमें पकड़ लिया और उसे ढाढ़स बंधाया। तब वह रो-रोकर राजा युधिष्ठिरसे कहने लगी, 'राजन्! अपने घोर पुत्रोंको क्षात्र-धर्मके अनुसार मारा गया सुनकर आप तो उपप्लव्य नगरमें मेरे साथ रहकर याद भी नहीं करेंगे। परंतु पापी अश्वत्थामाने उन्हें सोते हुए ही मार

डाला—यह सुनकर मुझे तो उनका शोक आगकी तरह जला रहा है। यदि आप आज ही सायियोंके सहित उस पापीके जीवनका अन्त नहीं कर देंगे और वह अपने कुकर्मका फल नहीं पायेगा तो याद रखिये मैं यहाँ आजोवन अनशनव्रत आरम्भ कर दूँगा।'

ऐसा कहकर यशस्विनी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिरके समीप हो बैठ गयी। तब धर्मराजने अपनी प्रियाको पास ही



बैठे देखकर कहा, 'धर्मज्ञे! तुम्हारे पुत्र और नाई धर्मपूर्वक घृष्ट करके वीरगतिको प्राप्त हुए हैं। तुम्हें उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये। अश्वत्थामा तो यहाँसे बहुत दूर दुर्गम वनमें चला गया है। उसे मार भी डाला जाय तो तुम्हें यह बात कैसे मालूम होगी?'

द्रौपदीने कहा—'राजन्! मैंने सुना है कि अश्वत्थामाके सिरमें जन्मके साथ ही उत्पन्न हुई एक मणि है। सो संग्राममें उस पापीका वध करके उस मणिको ले आना चाहिये। मेरा यही विचार है कि उसे आपके सिरपर धारण कराकर ही मैं जीवन धारण करूँगी।' धर्मराजसे ऐसा कहकर फिर द्रौपदीने भीमसेनके पास आकर कहा, 'भीमसेन! आप क्षात्रधर्मकी ओर देखकर मेरी रक्षा करें। इन्द्रने जैसे शम्भुरासुरको मारा था, उसी प्रकार आप उस पापीका वध करें। यहाँ आपके समान पराक्रमी और कोई पुष्य नहीं

है। धारणावत नगरमें जब पाण्डवोंपर बड़ा संकट आ पड़ा था, तब आपहीने इन्हें सहारा दिया था। हिडिम्बासुरसे पाता पड़नेपर भी आप ही इनके रसक हुए थे। विराट-नगरमें जब कीचकने मुझे बहुत तंग किया था, तब भी आपहीने उस दुःखसे मेरा उद्धार किया था। आपने जिस प्रकार ये बड़े-बड़े काम किये हैं, उसी प्रकार इस द्रोणपुत्रको मारकर भी प्रसन्न होइये।

द्रोणबीका यह तरह-तरहका पिलाप और भोषण दुःख देलकर भीमसेन सह न सके। वे अश्वत्थामाको मारनेका निरचय कर एक सुन्दर धनुष लेकर रथपर तयार हो गये तथा नकुलको अपना सारथि बनाया। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुषको टंकार की ओर शीघ्र ही घोंघोंको हँकया दिया। छावनीसे निकलकर उन्होंने अश्वत्थामाके रथमा चिह्न देलते हुए बड़ी तेजीसे उसका पीछा किया।

श्रीकृष्णका अश्वत्थामाके विषयमें एक पूर्वप्रसंग सुनाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जन्मेजय ! भीमसेनके चले जानेपर यदुधेष्ठ भगवान् कृष्णने धर्मराजसे कहा, 'राजन् ! आपके भाई भीमसेन पुत्रशोकके कारण अश्वत्थामाको संग्राममें मारनेके लिये अकेले ही जा रहे हैं। ये आपको अपने सब भाइयोंसे अधिक प्रिय हैं। फिर इस कठिनाईके समय आप उनको सहायताका उद्योग क्यों नहीं करते ? आचार्य द्रोणने अपने पुत्रको जिस दहास्तकी शिक्षा दी है, वह सारी पृथ्वीको भी भस्म कर सकता है। वही परमास्त्र उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुनको भी दिया है। अश्वत्थामा बड़ा असहनशील है। उसने तो अकेले अपने-आपको ही इसे सिलानेकी प्रार्थना की थी। आचार्य इसकी चपलता ताड़ गये थे और उन्होंने इसे यह आदेश दिया था कि 'मंदा ! बहुत बड़ी आपत्तिमें पड़ जानेपर भी तुम इसका प्रयोग मत करना। विशेषतः मनुष्योंपर तो तुम इसे छोड़ना ही मत; क्योंकि मैं देखता हूँ तुम सत्पुरुषोंके मार्गपर स्थिर रहनेवाले नहीं हो।'

पिताके ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अश्वत्थामा सय प्रकारके सुखकी आशा छोड़कर बड़े शोकसे पृथ्वीपर विचरने लगा। एक बार जिस समय आपसोग वनमें थे, यह द्वारकामें आकर घृष्णिर्वशिष्योंके साथ रहा था और उन्होंने इसका बड़ा सत्कार किया था। एक दिन इसने एकान्तमें मेरे पास अकेले ही आकर कहा, 'कृष्ण ! मेरे पिताजीने बड़ी भोषण तपस्या करके अगस्त्यजीमे जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था, वह इस समय जंसा उनके पास है वंसा ही मेरे पास भी है। तो यदुधेष्ठ ! आप मुझे वह दिव्य अस्त्र लेकर अपना चक्र मुझे दे दीजिये।'

तब मैंने कहा, 'देखो ! ये मेरे धनुष, शक्ति, चक्र और गदा पड़े हैं। तुम इनमेंसे जो-जो अस्त्र लेना चाहो, वही मैं तुम्हें देता हूँ। तुम जिसे उठा सको और जिसका मुद्दमें प्रयोग कर सको, वही अस्त्र ले लो और मुझे जो अस्त्र देना

चाहते हो, वह भी मत दो।' तब इतने मेरे साथ स्पष्टा रलते हुए एक हजार अरोंवाला और वज्रकी भाषिवाला मेरा संहिका चक्र लेना चाहता। मैंने कहा 'ले लो।' इसने उछलकर बायें हाथो उसे उठानेका प्रयत्न किया। किन्तु



उस स्थानमे उसे टगमे मग भी नहीं कर सका। फिर उसे बायें हाथसे उठानेकी चेष्टा करने लगा। किन्तु पूरा-पूरा प्रयत्न करनेपर भी जब वह उसे उठाने या चमानेमें समर्थ न हुआ तो अत्यन्त उदाग होकर हट गया। जब अपने उद्वेगमें असफल होकर वह निराम हो गया और इमे बहुत भेद हुआ तो मैंने पास बुलाकर कहा, 'निरागी ध्यजामें वातर्क चिह्न सुगोभिन है वह गाण्डीक्यारी अर्जुन देयना और

मनुष्य—सभीमें सम्मानित है। उसने इन्द्रयुद्धमें देवाधिदेव नीलकण्ठ उमापति भगवान् शंकरको भी संतुष्ट कर दिया था। उससे बढ़कर संसारमें मुझे कोई भी पुरुष प्रिय नहीं है। किंतु जैसा तुम कह रहे हो, वैसी बात तो कभी उसने भी मुझे नहीं निकाली। मैंने बारह वर्षतक कठोर ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते हुए हिमालयमें भीषण तपस्या करके यह अस्त्र पाया था। साक्षात् सनत्कुमारजी ही प्रद्युम्नरूपसे मेरी सहर्षमिणी रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। किंतु जिस चक्रको तुम मांग रहे हो, उसे तो कभी उन्होंने भी नहीं मांगा। महाबली बलरामजी तथा गद और सान्धने भी इसे लेनेकी इच्छा कभी प्रकट नहीं की। तुम भरतवंशके आचार्य द्रोणके पुत्र हो और सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं। फिर इस चक्रको लेकर तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो ?'

मैंने इस प्रकार कहा तो अश्वत्थामा कहने लगा, 'कृष्ण ! मैं आपका पूजन करके फिर आपके ही साथ युद्ध करूँगा। भगवन् ! मैं सच कहता हूँ, मैंने आपके इस देवता और दानवीसे पूजित चक्रको इसीलिये मांगा है जिससे कि मैं अजेय हो जाऊँ। किंतु अब मैं अपनी दुर्लभ कामनाको पूर्ण किये बिना ही यहाँसे चला जाऊँगा, आप केवल इतना कह दीजिये कि 'तेरा कल्याण हो।' इस भयंकर चक्रको चौर-शिरोमणि आपहीने धारण कर रखा है। इसके समान संसारमें कोई दूसरा चक्र नहीं है और इसे धारण करनेकी शक्ति भी आपके सिवा और किसीमें नहीं है।' ऐसा कहकर अश्वत्थामा मन्त्रसे रथमें जोतने योग्य घोड़े और तरह-तरहके रत्न लेकर चला गया। यह बड़ा क्रोधी, दुष्ट, चञ्चल और क्रूर स्वभाववाला है तथा इसे ब्रह्मास्त्रका भी ज्ञान है। इसलिये इस समय भीमसेनकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है।

अश्वत्थामा और अर्जुनका एक-दूसरेपर ब्रह्मास्त्र छोड़ना तथा नारद और व्यासजीका उन्हें शान्त करा देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर, श्रीकृष्ण सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित एक श्रेष्ठ रथपर चढ़े। उस रथका रंग उदय होते हुए सूर्यके समान लाल था। उसके दाहिने धुरेमें शैव्य और बायेंमें सुग्रीव नामका घोड़ा जुता हुआ था तथा उसे अगल-बगलसे मेघपुष्प और बलाहक नामके घोड़े खींचते थे। उस रथपर विश्वकर्माका बनाया हुआ रत्न और धातुओंसे विमूषित ध्वजाका डंडा उठी हुई मायाके समान जान पड़ता था। उसकी ध्वजापर पक्षिराज गरुड़ विराजमान थे। इस अद्भुत रथपर भगवान् श्रीकृष्ण बैठ गये और उनके बैठने पर अर्जुन तथा राजा युधिष्ठिर उतपर सवार हो गये। उनके चढ़ जानेपर श्रीकृष्ण ने अपने तेज घोड़ोंको चाबुकसे हाँका। घोड़े बड़ी तेजीसे भीमसेनके पीछे चल दिये और तुरंत ही उनके पास पहुँच गये। इस समय भीमसेन क्रोधातुर होकर शत्रुका संहार करनेके लिये तुले हुए थे; इसलिये इन महारथियोंके रोकने-पर भी वे रुके नहीं। वे इनके देखते-देखते अपने घोड़े दौड़ाते भीगङ्गाजीके तटपर पहुँच गये, जहाँ उन्होंने अश्वत्थामाको बैठा सुना था। किंतु उस स्थानपर पहुँचकर उन्होंने गङ्गाजीकी धारके पास ही परमयशस्वी व्यासजीको अनेकों ऋषियोंके साथ बैठे देखा। उनके पास ही क्रूरकर्मा अश्वत्थामा भी मौजूद था। उधने अपने शरीरमें घूत लगा रक्ता था

और वह कुशाके वस्त्र पहने हुए था। कुन्तीनन्दन भीमसेन उसे देखते ही 'अरे ! खड़ा तो रह' इस प्रकार चिल्लाते हुए धनुष-बाण लेकर उसकी ओर दौड़े। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा यह देखकर कि धनुर्धर भीम तथा उसके पीछे राजा युधिष्ठिर और अर्जुन भी मेरी ओर आ रहे हैं, बहुत डर गया और उसने निरश्चय किया कि अब ब्रह्मास्त्रके प्रयोगका समय आ गया है। तुरंत ही उसने उस दिव्य अस्त्रका चिन्तन किया और अपने बायें हाथसे एक सौक उखाड़ ली; फिर ऐसा संकल्प करके कि 'पृथ्वी-पाण्डवहीन हो जाय' उसने क्रोधमें भरकर सम्पूर्ण लोकोंको मोहमें डालनेके लिये वह प्रचण्ड अस्त्र छोड़ दिया। इससे उस सौकमें आग पंदा हो गयी और वह प्रलयकालकी अग्निके समान मानो तीनों लोकोंकी भस्म करने लगी।

श्रीकृष्ण अश्वत्थामाकी चेष्टा देखकर ही उसके मनके भावको ताड़ गये थे। उन्होंने अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन ! अर्जुन ! आचार्य द्रोणका सिलाया हुआ दिव्य अस्त्र तो तुम्हारे हृदयमें विद्यमान है, अब उसके प्रयोगका समय आ गया है। अपनी और अपने भाइयोंकी रक्षाके लिये तुम भी इस समय उसीका प्रयोग करो; क्योंकि ब्रह्मास्त्रको ब्रह्मास्त्रके द्वारा ही रोका जा सकता है।' श्रीकृष्णके इस प्रकार कहते ही अर्जुन धनुष-बाण लेकर तुरंत रथसे कूद पड़े। उन्होंने पहले

मारनेके लिये उसे नहीं छोड़ा है। उसने तो अपने ब्रह्मास्त्रमे तुम्हारे ब्रह्मास्त्रको भान्त करनेके लिये ही उसका प्रयोग किया है और अब उसे लौटा भी लिया है। ब्रह्मास्त्रको पाकर भी तुम्हारे पिताजीका उपदेश मानकर महाबाहू अर्जुन क्षात्र-धर्ममे विचरित नहीं हुआ है। यह ऐसा धीर, वीर, साधु और सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंको जाननेवाला है; फिर भी तुम्हें हमे नाहयोंके सहित मार टाननेकी कुर्बानि क्यों हुई है? देखो, जित देसमें एक ब्रह्मास्त्रको दूसरे ब्रह्मास्त्रसे ब्या दिया जाता है, वहाँ बाहू वर्षतक वर्षा नहीं होती। इसीसे प्रजाका हित करनेके लिये अर्जुनने तुम्हारे ब्रह्मास्त्रको नाश नहीं किया है। तुम्हें पाण्डवोंको, अपनी और रावृको रक्षा करनी ही चाहिये। इसलिये अब तुम इस दिव्य अस्त्रको लौटा लो। अब तुम्हारा क्रोध भान्त हो जाना चाहिये और पाण्डव भी स्वस्थ रहने चाहिये। राजाधि युधिष्ठिर किराीको भी अग्रमंसे जीतना नहीं चाहते। तुम्हारे चिरमें जो मणि है, वह तुम इन्हें दे दो और उसे लेकर पाण्डवमोग तुम्हें प्राणदान दे दें।

अश्वत्थामा बोला—पाण्डवोंने कौरवोंका जिनना धन और जी-जो रत्न प्राप्त किये हैं, मेरी यह मणि उन सबसे अधिक कीमती है। इसे बांध मनेपर शस्त्र-व्याधि या क्षुधासे अथवा देवता, दानव, नाग, राक्षस या चौरोंने होनेवाला किसी भी प्रकारका भय नहीं रहता। इस मणिका ऐसा अद्भुत प्रभाव है, इसलिये मुझे इसका त्याग नो किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिये। तो भी आपने जो कुछ आदेश मुझे दिया है वह लो मुझे करना ही होगा। किन्तु मेरा छोड़ा हुआ यह दिव्य अस्त्र व्यर्थ तो हो नहीं सकता। हमे एक बार छोड़कर फिर लौटानेकी मुझे सामर्थ्य नहीं है। इसलिये अब मैं हम अस्त्रको उत्तरके गर्भपर छोड़ता हूँ। आपकी आज्ञाका मैं कभी उल्लंघन न करता; परन्तु क्या करूँ, हमे लौटाना तो मेरे बगको बात नहीं है।

व्यासजी बोले—अच्छा, ऐसा ही करो; चित्तमें और किसी प्रकारका विचार मत रखो, इस अस्त्रको पाण्डवोंके गर्भपर छोड़कर भान्त हो जाओ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! सब अश्वत्थामाने यह अस्त्र उत्तरके गर्भपर छोड़ दिया। यह देखकर प्रभवान् कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वत्थामामे कहा, 'कुछ

दिन हुए विराटपुत्री उत्तरामे, जब वह उपप्लव्य नगरमें थी, एक नपस्वी ब्राह्मणने कहा था कि कौरवोंका परिक्षय होनेपर तेरे गर्भसे एक बालक होगा। उस ब्राह्मणका वह बचन सत्य होगा। वह परीक्षित् ही इन पाण्डवोंके वंशको चन्वानेवाला बालक होगा।'

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अश्वत्थामामे क्रोधमें भरकर कहा, 'किजब! तुम पाण्डवोंका पक्ष लेकर जो बात कह रहे हो, वह कभी नहीं हो सकती। मेरा वाक्य भूटा नहीं होगा। मेरा यह बयानक अस्त्र अवश्य ही उसके गर्भपर गिरेगा।'

श्रीभगवान्जाने कहा—इस दिव्य अस्त्रका वार तो अवश्य अमोघ ही होगा। किन्तु वह गर्भ मरता हुआ उत्पन्न होनेपर भी फिर दीर्घजीवन प्राप्त करेगा। हाँ, तुम्हें अवश्य सभी समस्तद्वार पानी और फायर ही गदमने हैं; क्योंकि तुम बार-बार पाप हो बढोरते हो और बालकोंकी हत्या करते हो। इसलिये तुम्हें इस पापका फल भोगना ही पड़ेगा। तुम तीन हजार वर्षतक इस पृथ्वीमें भटकने रहोगे और किराी भी जगह किसी पुण्यके साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीरमेंसे पीव और लोहकी गन्ध निकलेगी। इसलिये तुम मनुष्योंके बीचमें नहीं रह सकोगे। दुर्गम चनोंमें ही पड़े रहोगे। परीक्षित् तो दीर्घायु प्राप्त करके वेदव्रत धारण करेगा और फिर आचार्य्य रूपसे सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम-उत्तम अस्त्रोंका भान प्राप्त करके वह क्षात्रधर्मका अनुसरण करते हुए साठ वर्षतक पृथ्वीका राज्य करेगा। दुर्गमन्! देखना, वह परीक्षित् नामका राजा तुम्हारी आँवोंके सामने ही कुन्वंशकी गद्दीपर बैठेगा। वह तुम्हारे शस्त्रकी चन्वानेसे जल अवश्य जायगा, परन्तु मैं उसे पुनः जीवित कर दूँगा। नराधम! उस समय तुम मेरे तप और सत्यका प्रभाव देख लेना।

व्यासजी कहने लगे—शौणपुत्र! तुमने मेरी भी बात न मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया है और ब्राह्मण होकर भी तुम्हारा आचरण ऐसा लौटा है इसलिये देखकीनन्दन श्रीकृष्णने जो बात कही है, वह अवश्य ठीक होगी; क्योंकि इस समय तुमने स्वधर्मको छोड़कर क्षात्रधर्म स्वीकार कर रक्खा है।

अश्वत्थामा बोला—राजन्! भगवान् कृष्णकी बात ठीक ही। अब मैं मनुष्योंमें केवल आपके ही साथ रहूँगा।

पाण्डवोंका द्रौपदीके पास आकर उसे मणि देना तथा श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको अश्वत्थामाके अद्भुत पराक्रमका रहस्य बताना

वंशम्पापनजी कहते हैं—राजन् ! इसके बाद अश्वत्थामा पाण्डवोंको मणि देकर उन सबके सामने ही उदास मनसे वनमें चला गया। इधर पाण्डव भी श्रीकृष्ण, नारद और व्यासजीको आगे करके बड़ी तेजीसे मनस्विनी



द्रौपदीके पास आये, जो इस समय अन्न त्याग किये बैठे थी। वहाँ वे सब उसे चारों ओरसे घेरकर बैठ गये। फिर राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेनने द्रौपदीको वह दिव्य मणि दी और उसने कहा, “मदे ! तू यह मणि है, तुम्हारे पुत्रोंके वध करनेवालेको हमने जीत लिया है। अब उठो और शोक त्यागकर शावधर्मका विचार करो। जिस समय श्रीकृष्ण संधिके लिये कैरवोंके पास जा रहे थे, उस समय तुमने इनसे कहा था कि ‘किराव ! आज पाण्डवत्वोग मेरे अपमानकी बात भूलकर शत्रुओंके साथ मेल करना चाहते हैं; इससे मैं समझती हूँ कि मेरे न तो पति हैं, न पुत्र हैं और न भाई ही हैं तथा न तुम ही मेरे हो।’ सो आज अपने उन शत्रिय-घर्मोचित वाक्योंके प्राद करो। पापी दुर्योधन मारा गया, मैंने तड़पते हुए दुःशासनका रक्तपान भी कर लिया तथा

द्रोगपुत्रको भी हमने जीत लिया; ब्राह्मण और गुरुपुत्र समझकर ही उसे जीता छोड़ दिया है। उसका सारा धरा मिट्टीमें मिल चुका है। हमने उसकी मणि छीन ली है और अस्त्र पृथ्वीपर डलवा लिये हैं।”

यह सुनकर द्रौपदीने कहा—‘गुरुपुत्र तो मेरे लिये गुरुहोके समान है, मैं तो केवल उससे अपने अनिष्टका बदला ही लेना चाहती थी। अब इस मणिको महाराज अपने मस्तक पर धारण करें।’

तब राजा युधिष्ठिरने उस मणिको गुरुजीका प्रसाद समझकर द्रौपदीके कहनेसे उसी समय अपने मस्तकपर धारण कर लिया। इसके बाद पुत्रशोकानुता द्रौपदी उठकर अपने स्थानपर चली गयी।

राजन् ! अब महाराज युधिष्ठिरने, रातके समय जो वीर मारे गये थे, उनके लिये शोकानुतर होकर श्रीकृष्णसे कहा, ‘कृष्ण ! अश्वत्थामा तो शस्त्रविद्यामें विरोध करना भी नहीं था; फिर उसने मेरे सभी महारथी पुत्र और हजारों योद्धाओंके जन्म अकेले ही सोहा लेनेवाले शस्त्रविद्याविभारद द्रुपदपुत्रोंको कैसे मार डाला ? उसने ऐसा कौन पुण्यकर्म किया था, जिसके प्रभावसे उस अकेलेने ही हमारे सब सैनिकोंको नष्ट कर दिया ?’

श्रीकृष्णने कहा—अश्वत्थामाने अथर्व ही ईश्वरोंके ईश्वर देवाग्निदेव अग्निनाशी भगवान् शिवकी शरण ली थी, इसीसे उसने अकेले ही अनेकों योद्धाओंको मार डाला। महादेवजी तो प्रसन्न होनेपर अमरता भी दे सकते हैं और इतना पराक्रम दे देते हैं, जिससे इन्द्रको भी नष्ट किया जा सकता है। भरतश्रेष्ठ ! महादेवजीके स्वरूपका मुझे अच्छी तरह ज्ञान है तथा उनके जो अनेकों प्राचीन कर्म हैं, उन्हें भी मैं जानता हूँ। वे सम्पूर्ण भूतोंके आदि, मध्य और अन्त हैं। यह सारा जगत् उन्हींके प्रभावसे चैष्टा कर रहा है। वे महान् वीर्यशाली महादेवजी ही अश्वत्थामापर प्रसन्न हो गये थे। इसीसे उसने आपके महारथी पुत्रोंको और पाश्चात्तराजके अनेकों अनुयायियोंको धरासाथी कर दिया। अब आप उसके विषयमें कोई विचार न करें। अश्वत्थामाने यह काम महादेवजीकी कृपासे ही किया है। आप तो अब आगे जो काम करना हो, उसे कीजिये।

संक्षिप्त महाभारत

स्तीपर्व

शोकाकुल धृतराष्ट्रको सञ्जय और विदुरका समझाना

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके चकता महापि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको गुद्व करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

राजा जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! दुर्योधन और उसकी सारी सेनाका संहार हो जानेपर इस समाचारको सुनकर राजा धृतराष्ट्रने क्या किया ? इसी प्रकार कुचराज युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीनों महारथियोंने भी इसके बाद क्या किया ?

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! अपने सी पुत्रोंका संहार हो जानेसे महाराज धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए; पुत्रशोकसे उनकी हृदय जलने लगा और वे चिन्तामें डूब गये । उस समय सञ्जयने उनके पास जाकर कहा, 'महाराज ! आप चिन्ता क्यों करते हैं ? शोकको कोई बंटा तो सकता नहीं । राजन् ! इस युद्धमें अठारह अक्षीहिणी सेना मारी गयी, यह पृथ्वी निर्जन होकर सूनी-सी हो गयी है । अब आप क्रमशः अपने चाचा-ताऊ, बेटों-भोतों, सम्बन्धियों-मुद्दों और गुरुजनोंकी प्रतिक्रिया कराइये ।'

सञ्जयकी यह दुःखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र बेटे-भोतोंके बधसे व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । फिर सावधान होनेपर वे बोले, "मेरे पुत्र, मन्त्री और सभी सुहृज्जन मर चुके हैं । अब तो इत पृथ्वीपर भटक-भटककर मेरे लिये दुःख ही उठाना बाकी रह गया है । ऐसी जिदगीसे भला, मुझे क्या लाभ है ? मेरा राज्य नष्ट हो गया, भाई-बन्धु सब युद्धमें काम आ गये और अग्नि तो पहलेहीसे नहीं है । हाय ! मैंने अपने हितैषी परशुरामजी, नारदजी और भगवान् कृष्णदेवपायनकी भी बात नहीं सुनी । श्रीकृष्णने सारी समाके

बीचमें मेरे भलेके लिये कहा था कि 'राजन् ! व्यर्थ बर मत बाँधो, अपने बेटेकी रोको ।' किन्तु मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मैंने उनकी बात नहीं मानी । इसी तरह मैंने भीष्मजीकी धर्मानुकूल सलाह भी नहीं सुनी । इसीसे आज बुरी तरह पछताना पड़ रहा है । सञ्जय ! इस जन्ममें किया हुआ कोई ऐसा पाप आज याद तो नहीं आता, जिसके कारण मुझे यह फल भोगना चाहिये था । अवश्य ही पूर्वजन्मोंमें मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है । इसीसे विधाताने मुझे इन दुःखमय कर्मोंमें निपुणत कर दिया । अब मेरी आयु ढल चुकी है, सब भाई-बन्धु समाप्त हो चुके हैं और देववश मेरे हितैषी और मित्रोंका भी नाश हो चुका है । भला, अब संसारमें मुझसे बढ़कर दुखी और कौन होगा । अतः पाण्डवलोग मुझे आज ही ब्रह्मलोकके लुले हुए मार्गपर बढ़ते देखें ॥"

इस प्रकार राजा धृतराष्ट्रने अत्यन्त शोक प्रकट करते हुए अनेकों बातें कहीं । तब सञ्जयने राजाके शोकको शान्त करनेके लिये ये शब्द कहे, राजन् ! आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी ही खोटी बुद्धिवाला था । दुःशासन, कर्ण, शकुनि, चित्रसेन और शल्य जिन्होंने सारे संसारको कण्टकाकीर्ण कर दिये थे—ये सब उसके सलाहकार थे । अरे ! उसने पितामह भीष्म, माता गान्धारी, चाचा विदुर, गुरु द्रोण, आचार्य कृत् और महामति नारदजीकी भी बात नहीं सुनी । यहाँतक कि उसने दूसरे-दूसरे ऋषि और अनुलिततेजस्वी व्यासजीका भी कहा नहीं किया । उसे सदा युद्धकी ही लगन लगी रही । इसके कारण उसने कभी आदरपूर्वक धर्मानुष्ठान भी नहीं किया और न कभी क्षत्रियोंके ही किसी धर्मका आदर किया । उसने तो व्यर्थ ही क्षत्रियोंका संहार कराया । आपमें सब प्रकारकी सामर्थ्य थी, तथापि इस विषयमें आपने भी कुछ नहीं कहा । आपकी बात कोई टाल नहीं सकता था, तथापि आपने निष्पक्ष होकर दोनों ओरके बोलोंको तराजूपर नहीं तोला । मनुष्यको यथाशक्ति पहले ही

ऐसा काम करना चाहिये, जिससे अपने पिछले कर्मके लिये उसे पछताना न पड़े। आपने तो पुत्रहनेहमें फँसकर उसीका प्रिय करना चाहा, इसीसे अब आपको परचात्ताप करना पड़ रहा है; अतः इसके लिये कोई शोक नहीं करना चाहिये। शोक करनेसे न तो धन मिलता है, न फल प्राप्त होता है, न ऐश्वर्य मिलता है और न परमात्माकी ही प्राप्ति होती है। जो पुष्ट स्वर्ग अग्नि पंचा करके उसे कपड़ेमें लपेटकर जलने लगाता है और फिर पछतावा करने बँडता है, वह बुद्धिमान् नहीं कहा जा सकता। इस समय आपके पुर्वों और आपने ही पाण्डवरूप अग्निको अपने वाय्वरूप वायुसे मुक्तपाया मा और उसे लोमरूप धृत छोड़कर प्रखरित किया मा। जब वह आग धधक उठी तो उसमें आपके पुत्र पतङ्गोंकी तरह गिरने लगे और उसकी बाणरूप ज्वालाओंमें जलकर भस्म हो गये। अतः आपको उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये। इस समय अधुपातके कारण आपका मुख अत्यन्त मलिन हो गया है। शास्त्रवृष्टिसे ऐसा होना अच्छा नहीं है और समन्वित लोग इसे अच्छा भी नहीं कहते। ये शोकके आँसू आगकी चिनपायियोंके समान मनुष्योंको जलाया करते हैं। अतः आप बुद्धिके द्वारा मनको सावधान करके शोक और रोवको छोड़ दीजिये।

वंशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार महात्मा सञ्जयने राजा धृतराष्ट्रको धैर्य बँडपाया। इसके बाद विदुरजी अपने अमृतके समान मीठे वाक्योंसे उन्हें सान्त्वना देते हुए कहने लगे, 'राजन्! आप पृथ्वीपर क्यों पड़े हैं, उठकर बैठ जाइये और विचारपूर्वक मनको सावधान कीजिये। संसारमें सब जीवोंकी अन्तमें यही तो गति होनी है। जितने संघ्य हैं, उनका पर्यवसान क्षयमें ही होगा; सारी भौतिक उप्रतिधियोंका अन्त पतनमें ही होना है; सारे संयोग वियोगमें ही समाप्त होनेवाले हैं। इसी प्रकार जीवनका अन्त भी मरणमें ही होना है। जब यमराज शूरवीर और डरपीक धोर्तेहोको अपनी ओर खींचते हैं, तब वे वीर क्षत्रिय युद्ध क्यों न करते। राजन्! समय आनेपर कोई नहीं बच सकता। जो युद्ध नहीं करता, वह भी मरता ही है और कभी-कभी युद्ध करनेवाला भी बच ही जाता है। मृत्यु आनेपर तो कोई नहीं जी सकता। जितने प्राणी हैं आरम्भमें वे नहीं थे और अन्तमें भी नहीं रहेंगे, केवल बीचमें ही दिखायी देते हैं। इसलिये उनके लिये शोक करनेकी क्या आवश्यकता है। शोक करनेसे मनुष्य न तो मरनेवालेके साथ जा सकता है और न मर ही सकता है। इस प्रकार जब लोकको यही स्वामाविकी स्थिति है तो आप किसलिये शोक करते हैं ?

इसके सिवा राजन्! युद्धमें मारे जानेवाले वीरोंके

लिये तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिये। यदि शास्त्र ठीक है तो उन सभीने परमगति पायी है। इस युद्धमें मरनेवाले सभी वीर स्वाध्यायशील और सदाकारी थे तथा वे सभी शत्रुके सामने डटे रहकर धीरगतिकी प्राप्त हुए हैं। इसलिये उनके लिये शोकका अवसर ही कहाँ है? जन्मसे पूर्व वे सभी लोग अदृश्य थे और अब फिर अदृश्य हो गये हैं। न तो वे आपके थे न आप ही उनके हैं। फिर इसमें शोक करनेका क्या कारण है? युद्धमें तो जो मनुष्य मार-जाता है, उसे स्वर्ग मिलता है और जो मारता है, उसे कीर्ति मिलती है। इस प्रकार हमारी दृष्टिसे तो दोनों ही प्रकार बड़ा भारी लाभ है, युद्धमें निष्फलता तो ही नहीं। मनुष्य बलिगामुक्त यज्ञ और तपस्यासे भी उतनी सुगमतासे स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते जैसे कि युद्धमें मारे जानेपर शूरवीरलोग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार क्षत्रियके लिये तो इस सोकमें धर्मयुद्धसे बड़कर और कोई साधन नहीं है। अतः आप अपने मनको शान्त करके शोक छोड़िये। इस प्रकार शोकाकुल होकर आपको अपने शरीरका त्याग नहीं कर देना चाहिये। संसारमें बार-बार जन्म लेकर आप हजारों माता-पिता और स्त्री-पुत्रादिका सङ्ग कर चुके हैं। परंतु यास्तवमें किसके वे हुए और किसके हम। शोकके हजारों स्थान हैं और भयके भी संकड़ों स्थान हैं। किंतु इनका सर्वदा मूर्ख पुष्ट्योंपर ही प्रभाव पड़ता है, बुद्धिमानोंपर नहीं।

कुशेष्ट! कालका तो न कोई प्रिय है न अप्रिय और न किसीके प्रति उसका उदासीनभाव ही है। वह तो सभीको मृत्युकी ओर खींचकर ले जाता है। काल ही प्राणियोंको ब्रूडा करता है और काल ही उन्हें नष्ट कर देता है। जब सब जीव सो जाते हैं, उस समय भी काल जागता रहता है। निश्चिदेह कालसे पार पाना बड़ा ही कठिन है। योगन, रूप, जीवन, धनका संग्रह, आरोग्य और प्रियजनोंका सहवास—ये सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान् पुष्ट्यको इनमें फँसना नहीं चाहिये। यह दुःख तो सारे ही देशसे सम्बन्ध रखता है। इसके लिये आप अकेले शोक न करें। यद्यपि प्रियजनोंका अभाव होनेपर दुःख दबाता ही है, तथापि शोक करनेसे वह दूर नहीं होता; क्योंकि चिन्तन करनेपर दुःख कभी नहीं घटता, इससे तो वह और भी बढ़ जाता है। जो लोग थोड़ी बुद्धिवाले होते हैं, वे ही अनिष्टकी प्राप्ति और इष्टका वियोग होनेपर मानसिक दुःखसे जला करते हैं। शोक करनेसे मनुष्य कर्तव्य-विभूत हो जाता है तथा अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्गसे भी वञ्चित रहता है। भिन्न-भिन्न आर्थिक स्थितियोंमें पड़नेपर असंतोषी पुष्ट्य तो घबरा जाते हैं, किंतु विज्ञान-वानोंको सभी अवस्थाओंमें संतोष रहता है।

‘मनुष्यको चाहिये कि मानसिक दुःखको विचारसे और शारीरिक कष्टको ओषधियोंसे दूर करे। इसे ही विज्ञानका बल कहते हैं। उसे मूर्खोंका-सा व्यवहार नहीं करना चाहिये। मनुष्यका पूर्वकृत कर्म उसके सोनेपर सो जाता है, उठनेपर उठ बैठता है और दौड़नेपर भी साथ लगा रहता है। वह जिस-जिस अवस्थामें जैसा-जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता

है, उसी-उसी अवस्थामें उसका फल भी पा लेता है। मनुष्य आप ही अपना बन्धु है, आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपने पाप-पुण्यका साक्षी है। वह शुभ कर्मसे सुख पाता है और पापसे दुःख भोगता है। इस प्रकार सर्वदा किये हुए कर्मका ही फल मिलता है, बिना कियेका नहीं।’

विदुरजीका महाराज धृतराष्ट्रके प्रति संसारके स्वरूप, उसकी भयंकरता और उससे छूटनेके उपायका वर्णन करना

राजा धृतराष्ट्रने कहा—परम बुद्धिमान् विदुरजी ! तुम्हारे शुभ सम्भाषणकी सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है। अभी मैं तुम्हारी सारगर्भित बातें और भी सुनना चाहता हूँ।

विदुरजी बोले—महाराज ! विचार करनेपर यह सारा जगत् अनित्य ही जान पड़ता है। यह केलेके खंभेके समान सारहीन है, इसमें सार कुछ भी नहीं है। मनुष्य जैसे नये या पुराने वस्त्रको उतारकर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार वह नये-नये शरीर भी धारण करता रहता है। जीव अपने पूर्वकर्मोंके अनुसार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार जब लोकका स्वरूप स्वभावसे ही आगमापायी (आने-जानेवाला) है तो आप किसलिये शोक करते हैं। इस संसारमें जो लोग बुद्धिमान्, सत्त्वगुणसे युक्त, सबका हित चाहनेवाले और प्राणियोंके समागमको कर्मानुसार जाननेवाले हैं, वे ही परमगति प्राप्त करते हैं।

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—विदुरजी ! संसारका स्वरूप बड़ा गहन है। अतः मैं यह सुनना चाहता हूँ कि इसे किस प्रकार जाना जा सकता है। सो तुम इसीका वर्णन करो।

विदुरजी बोले—महाराज ! जब गर्भाशयमें वीर्य और रजका संयोग होता है, तभीसे जीवोंकी क्रियाएँ दीखने लगती हैं। आरम्भमें जीव कलिल (वीर्य और रजके संयोग) में रहता है; फिर कुछ दिन बाद पाँचवाँ महीना बीतनेपर वह चैतन्यरूपसे प्रकट होकर पिण्डमें निवास करने लगता है। इसके बाद वह गर्भस्थ पिण्ड सर्वाङ्गपूर्ण हो जाता है। इस समय उसे मांस और रुधिरसे भरे हुए अत्यन्त अपवित्र गर्भाशयमें रहना पड़ता है। फिर वायुके वेगसे उसके पैर ऊपरकी ओर हो जाते हैं और सिर नीचेकी ओर। इस स्थितिमें योनिद्वारके समीप आ जानेसे उसे बड़े दुःख सहने

पड़ते हैं। फिर वह योनिमार्गसे पीडित होकर उससे बाहर आ जाता है और संसारमें आकर अन्यान्य प्रकारके उपद्रवोंका सामना करता है। अब यह जैसे-जैसे बढ़ने लगता है, वैसे-वैसे इसे नयी-नयी व्याधियाँ भी घेरने लगती हैं। इस प्रकार अपने कर्मसे पीडित होकर यह जीवन व्यतीत करता रहता है। जिनमें आसक्ति होनेसे ही रसकी प्रतीति होती है, वे विषय इसे घेरे रहते हैं तथा उनके कारण यह इन्द्रियरूप पाशोंसे बँधा रहता है। ऐसी स्थितिमें इसे तरह-तरहके व्यसन घेर लेते हैं। उनसे बँध जानेपर तो इसे तृप्ति ही नहीं होती। उस समय भले-बुरे कर्म करनेपर भी इसे उनका कुछ ज्ञान नहीं होता। केवल ध्याननिष्ठ पुरुष ही अपने चित्तको कुमार्गमें फँसनेसे बचा सकते हैं। साधारण जीव तो यमलोकके द्वारपर पहुँचकर भी उसे नहीं पहचान पाता। इतनेहीमें काल इसे मृत्युके मुखमें डाल देता है और यमदूत शरीरसे बाहर खींच लेते हैं। इसे बोलनेकी शक्ति नहीं रहती। उस समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है, वह सामने आता है; किंतु देहबन्धनमें बँध जानेपर यह फिर अपने उद्धारका प्रयत्न नहीं करता। हाय ! लोभके पंजेमें फँसकर संसार स्वयं ही टगा जा रहा है। यह लोभ, क्रोध और भयमें पागल होकर अपनी सुधि ही नहीं लेता। यदि यह कुलीन होता है तो अकुलीनोंको हेयदृष्टिसे देखता हुआ अपनी उस कुलीनतामें ही मस्त रहता है और धनी होनेपर धनके धमंडमें भरकर निर्धनोंकी निन्दा करता है। यह दूसरोंको तो मूर्ख बताता है, किंतु अपनी ओर कभी नहीं देखता। इसी तरह दूसरोंके दोषोंकी तो निन्दा करता रहता है, किंतु अपनेको कायूमें रखनेका कभी विचार भी नहीं करता। जब बुद्धिमान् और मूर्ख, धनी और निर्धन, कुलीन और अकुलीन तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित—सभी श्मशान-भूमिमें जाकर वस्त्रहीन अवस्थामें पड़ते हैं, तब किसी भी

व्यक्तिको उनमें कोई ऐसा अन्तर दिखायी नहीं देता, जिससे वे उनके कुल या रूपकी विशेषताका पता लगा सकें। जब मरनेके परचात् सभी जीव समान भावसे पृथ्वीकी गोदमें सोते हैं तो वे मूर्ख एक-दूसरेको धोखा क्यों देते हैं ? इस नाशवान् लोकमें जो पुण्य इस वेदोक्त उपदेशको साक्षात् या किसीके द्वारा सुनकर जन्मसे ही धर्मका आचरण करता है, वह अवश्य परमगति प्राप्त कर लेता है।

राजा भूतराष्ट्रने कहा—विदुर ! धर्मके इस गूढ़ रहस्यका ज्ञान बुद्धिसे ही हो सकता है। अतः तुम मेरे आगे विस्तारपूर्वक इस बुद्धिमार्गको कहो।

विदुरजी कहने लगे—राजन् ! भगवान् स्वयंभूको नमस्कार करके मैं इस संसाररूप गहन वनके उस स्वरूपका वर्णन करता हूँ, जिसका निरूपण महायज्ञोंने किया है। एक ब्राह्मण किसी विशाल वनमें जा रहा था। वह एक दुर्गम स्थानमें जा पहुँचा। उसे सिंह, व्याध्र, हाथी और रीछ आदि भयंकर जन्तुओंसे भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा उठा; उसे रोमाञ्च हो आया और मनमें बड़ी उथल-पुथल होने लगी। उस वनमें इधर-उधर दौड़कर उतने बहुत डूँडा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाय। परंतु वह न तो वनसे निकलकर दूर ही जा सका और न उन जंगली जीवोंसे ट्राण ही पा सका। इतनेहीमें उसने देखा कि वह भीषण वन सब ओर जाससे घिरा हुआ है। एक अत्यन्त भयानक स्त्रीने उसे अपनी भुजाओंसे घेर लिया है तथा पर्वतके समान ऊँचे पाँच तिरवाले नाग भी उसे सब ओरसे घेरे हुए हैं। उस वनके बीचमें झाड़-झंझड़ोंसे भरा हुआ एक गहरा कुआँ था। वह ब्राह्मण इधर-उधर भटकता उसीमें गिर गया। किंतु सत्ताजालमें फँसकर वह ऊपरको पंर और नीचेको तिर किये बीचहीमें लटक गया।

इतनेहीमें कुएँके भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखाया विद्या और ऊपरकी ओर उसके किनारेपर एक विशालकाय हाथी बोला। उसके शरीरका रंग सफेद और काला था तथा उसके छः मुख और बारह पंर थे। वह धीरे-धीरे उस कुएँकी ओर ही आ रहा था। कुएँके किनारेपर जो वृक्ष था, उसकी शाखाओपर तरह-तरहकी मधुमक्खिलोंने छत्ता बना रखा था। उससे मधुकी कई धाराएँ गिर रही थीं। मधु तो स्वभावसे ही सद्य लोनोंको प्रिय है। अतः वह कुएँमें लटकना हुआ पुण्य इन मधुकी धाराओंको ही पीता रहता था। इस संकटके समय भी उन्हें पीते-पीते उसको तृष्णा शान्त नहीं हुई और न उसे अपने ऐसे जीवनके प्रति वैराग्य ही हुआ। जिस वृक्षके सहारे वह लटका हुआ था, उसे रात-दिन काले और सफेद चूहे काट रहे थे। इस प्रकार इस स्थितिमें उसे

कई प्रकारके भयोंने घेर रखा था। वनको सीमाके पास हिसक जन्तुओंसे और अत्यन्त उग्ररूपा स्त्रीसे भय था, कुएँके नीचे नागसे और ऊपर हाथीसे आशाङ्क थी, पाँचवाँ भय चूहेके काट देनेपर वृक्षसे गिरनेका था और छठा भय मधुके लोभके कारण मधुमक्खिलोंसे भी था। इस प्रकार संसार-सागरमें पड़कर भी वह वहाँ डटा हुआ था तथा जीवनकी आशा बनी रहनेसे उसे उससे वैराग्य भी नहीं होता था।

महाराज ! मोक्षतत्त्वके विद्वानोंने यह एक दुष्टान्त कहा है। इसे समझकर धर्मका आचरण करनेसे मनुष्य परलोकमें सुख पा सकता है। यह जो विशाल वन कहा गया है, वह यह विस्तृत संसार ही है। इसमें जो दुर्गम जंगल बताया है, वह इस संसारकी ही गहनता है। इसमें जो बड़े-बड़े हिंस्र जीव बताये गये हैं, वे तरह-तरहकी व्याधियाँ हैं तथा इसकी सीमापर जो बड़े झील-झीलवाली स्त्री है वह वृद्धायस्था है, जो मनुष्यके रूप-रंगको गिराड़ देती है। उस वनमें जो कुआँ है, वह मनुष्यदेह है। उसमें नीचेकी ओर जो नाग बँडा हुआ है, वह स्वयं काल ही है। वह समस्त देहाधारियोंको नष्ट कर देनेवाला और उनके सर्वस्वको हड़प जानेवाला है। कुएँके भीतर जो सत्ता है, जिसके तन्तुओंमें यह मनुष्य लटका हुआ है, वह इसके जीवनकी आशा है तथा ऊपरकी ओर जो छः मूँहवाला हाथी है वह संवत्सर है। छः श्रतुएँ उसके मुख हैं तथा बारह महीने पंर हैं। उस वृक्षको जो चूहे काट रहे हैं, उन्हें रात-दिन कहा गया है। तथा मनुष्यकी जो तरह-तरहकी कामनाएँ हैं, वे मधुमक्खियाँ हैं। मक्खियोंके छत्तेसे जो मधुकी धाराएँ बू रही हैं, उन्हें भोगोंसे प्राप्त होनेवाले रस समझे, जिनमें कि अधिकांश मनुष्य डूबे रहते हैं। बुद्धिमान् लोग संसार-चक्रकी गतिको ऐसा ही समझते हैं। तभी वे वैराग्यरूपी तलवारसे इसके पाशोंको काटते हैं।

भूतराष्ट्रने कहा—विदुर ! तुम बड़े तत्त्वदर्शी हो। तुमने मुझे बड़ा सुन्दर आस्थान सुनाया है। तुम्हारे अमृत-मय वचनोंको सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होता है।

विदुरजी बोले—महाराज ! सुनिये; अब मैं विस्तारपूर्वक आपको उस मार्गका विवरण सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान् लोग संसारके दुःखोंसे छूट जाते हैं। राजन् ! जिस प्रकार किसी संवे रास्तेपर चलनेवाला पुरुष बक जानिएपर बीच-बीचमें विधाम कर लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोगोंको इस संसारयात्रामें चलते हुए बीच-बीचमें गर्भमें रहकर विधाम करना होता है। इस संसारसे मुक्त तो विवेकी पुरुष ही होते हैं। अतः शास्त्रज्ञोंने गर्भवासको मार्गका रूपक दिया है और गहन संसारको वन बताया है। यही तथा

चराचर प्राणियोंका संसारचक्र है। विवेकी पुरुषको इसमें आसक्त नहीं होना चाहिये। मनुष्योंकी जो प्रत्यक्ष और परोक्ष शारीरिक तथा मानसिक व्याधियाँ हैं, उन्हींको बुद्धिमानोंने हिंस्र जीव बताया है। मन्दमति पुरुष इन व्याधियोंसे तरह-तरहके क्लेश और आपत्तियाँ उठानेपर भी संसारसे विरक्त नहीं होते। यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियोंके पंजैसे निकल भी जाय तो अन्तमें इसे वृद्धावस्था तो घेर ही लेती है। इसीसे यह तरह-तरहके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धोंसे घिरकर मज्जा और मांसरूप कीचड़से भरे हुए आश्रयहीन देहरूप गड़ढ़ेमें पड़ा रहता है। वर्ष, मास, पक्ष और दिन-रातकी संघियाँ—ये क्रमशः इसके रूप और आयुका नाश किया करते हैं। ये सब कालके ही प्रतिनिधि हैं, इस बातको मूढ़ पुरुष नहीं जानते।

किंतु विद्वानोंका कथन है कि प्राणियोंका शरीर रयके समान है, सत्त्व (सत्त्वगुणप्रधान बुद्धि) सारथि है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं और मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक दौड़ते हुए उन घोड़ोंके पीछे लगा रहता है, वह तो इस संसारचक्रमें पहियेके समान घूमता रहता है। किंतु जो बुद्धिपूर्वक उन्हें अपने काबूमें कर लेता है, उसे इस संसारमें नहीं आना पड़ता। अतः बुद्धिमान् पुरुषको संसारकी निवृत्तिका ही प्रयत्न करना चाहिये। इस ओरसे लापरवाही नहीं करनी चाहिये। जो पुरुष इन्द्रियोंको बशमें रखता है, क्रोध और लोभसे छूटा

हुआ है तथा संतुष्ट और सत्यवादी है, वह शान्ति प्राप्त करता है। मनुष्यको चाहिये कि अपने मनको काबूमें करके ब्रह्मज्ञानरूप महीपथि प्राप्त करे और उसके द्वारा इस संसारदुःखरूप महारोगको नष्ट कर दे। इस दुःखसे संयमी चित्तके द्वारा जैसा छुटकारा मिल सकता है वैसा पराक्रम, धन, मित्र या हित—किसीकी भी सहायतासे नहीं मिल सकता। इसलिये मनुष्यको दयाभावमें स्थित रहकर शील प्राप्त करना चाहिये। दम, त्याग और अप्रमाद—ये तीन परमात्माके धाममें ले जानेवाले घोड़े हैं। जो पुरुष शीलरूप लगामको पकड़कर इन घोड़ोंसे जुते हुए मनरूप रथपर सवार रहता है, वह मृत्युके भयसे छूटकर ब्रह्मलोकमें जाता है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियोंको अभयदान करता है, वह भगवान् विष्णुके निर्विकार परमपदको प्राप्त होता है। अभयदानसे पुरुषको जो फल प्राप्त होता है, वह हजारों यज्ञ और नित्यप्रति उपवास करनेसे भी नहीं मिल सकता। यह बात निर्विवाद है कि प्राणियोंको अपने आत्मासे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है; क्योंकि मरण किसीको भी इष्ट नहीं है। इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको सभी जीवोंपर दया करनी चाहिये। जो बुद्धिहीन पुरुष तरह-तरहके माया-मोहमें फंसे हुए हैं और जिन्हें बुद्धिके जालने बाँध रक्खा है, वे भिन्न-भिन्न योनियोंमें भटकते रहते हैं। सूक्ष्मदृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्मको ही प्राप्त कर लेते हैं।

शोकमग्न राजा धृतराष्ट्रको महर्षि व्यासका समझाना

श्रीवैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! विदुरके ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र पुत्रशोकसे व्याकुल हो मूर्च्छा खाकर पृथ्वीपर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार अचेत होकर गिरते देख श्रीव्यासजी, विदुर, सञ्जय, सुहृद्गण और जो विश्वासपात्र द्वारपाल थे, वे शीतल जलके छोंटे देकर ताड़के पंखोंसे हवा करने लगे और उनके शरीरपर हाथ फेरने लगे। इस प्रकार उनके बहुत देरतक उपचार करनेपर राजाको चेत हुआ और वह पुत्रशोकसे व्याकुल होकर विलाप करने लगे, 'मनुष्यजन्मको धिक्कार है ! इसमें भी विवाहादि करके परिवार बढ़ाना तो बड़े ही दुःखकी बात है। इसीके कारण बार-बार तरह-तरहके दुःख पैदा होते हैं। पुत्र, धन, सुहृद् और सम्बन्धियोंका नाश होनेपर विष और अग्निके दाहके समान बड़ा ही दुःख भोगना पड़ता है। उस दुःखसे शरीरमें जलन होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी आपत्तिमें फँसनेपर तो मनुष्यको जीवित रहनेकी अपेक्षा

मौत ही अच्छी मालूम होती है। इसलिये आज मैं भी अपने प्राणोंको त्याग दूंगा।'

महात्मा व्यासजीसे ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अत्यन्त शोकाकुल हो गये और अपने पुत्रोंके ही चिन्तनमें डूबकर वे मौत रह गये। तब भगवान् व्यासने उनसे कहा, "धृतराष्ट्र ! तुमने सब शास्त्र सुने हैं। तुम बुद्धिमान् हो ! तथा धर्म और अर्थके साधनमें कुशल हो। मनुष्योंका जीवन सदा रहनेवाला नहीं है—यह तो तुम निःसंदेह जानते ही हो। यह मर्त्यलोक अनित्य है, परमपद नित्य है और जीवनका पर्यवसान मरणमें ही होता है—यह सब जानकर भी तुम शोक क्यों करते हो ? इस चरका प्रादुर्भाव तो तुम्हारे सामने ही हुआ था। तुम्हारे पुत्रकी कारण बनाकर कालने ही इसे अंकुरित किया था। राजन् ! यह कौरवोंका विध्वंस तो होना ही था। फिर तुम उन शूरवीरोंके लिये क्यों शोक करते हो ? उन सबने तो परमगति प्राप्त कर ली है। पुराने



इस बातको देवर्षि नारद जानते हैं। आपके पुत्र अपने ही अपराधसे मारे गये हैं। तुम उनके लिये शोक मत करो; क्योंकि इस सम्बन्धमें शोक करनेका कोई कारण नहीं है। पाण्डवोंने तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं किया है। वास्तवमें तो तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे, उन्होंने इस देशका नाश कराया है। पहले राजसूय यज्ञके समय देवर्षि नारदने राजा युधिष्ठिरकी समामें कहा था कि 'राजन्! तुम्हें जो कुछ करना हो, वह कर लो। एक समय ऐसा आवेगा कि सारे कौरव-याण्डव आपसमें युद्ध करके नष्ट हो जायेंगे।' नारदजीकी यह बात सुनकर उस समय पाण्डवोंको बड़ा शोक हुआ था। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह देवसभाका पुरातन गुप्त वृत्तान्त सुनाया है। इमे सुनानेमें मेरा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाय तथा इस युद्धको दैवी योजना समझकर तुम पाण्डुपुत्रोंपर स्नेह करने लगो। यही बात मैंने एकान्तमें युधिष्ठिरसे भी कही थी। इसीसे उन्होंने कौरवोंके साथ युद्ध रोकनेका इतना प्रयत्न किया था। परंतु देव बड़ा प्रबल है। इस जगत्के चराचर प्राणियोंके साथ कालका जो सम्बन्ध है, उसे कोई टाल नहीं सकता। राजन्! तुम तो बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान् हो, तुम्हें प्राणियोंके जन्म-मरणके रहस्यका भी पता है। फिर मोहमें क्यों फँसते हो? राजा युधिष्ठिरको यदि मालूम हो गया कि तुम अत्यन्त शोकतुर हो और बार-बार धरवारकर अचेत हो जाते हो तो वे प्राण त्याग देंगे। वीरवर युधिष्ठिर तो सर्वदा पशु-पक्षियोंपर भी कृपा करते हैं, फिर ये तुम्हारे प्रति दयाभाव क्यों नहीं रखेंगे। अतः मेरो आता मानकर और विधिका विधान टल नहीं सकता—ऐसा समझकर तथा पाण्डवोंपर कदवा करके तुम अपने प्राण धारण करो। ऐसा बर्ताव करनेसे संसारमें तुम्हारी कीर्ति होगी, धर्म और अर्थकी प्राप्ति होगी और दीर्घकालिक तपस्याका फल मिलेगा। तुम्हें जो प्रखलित अग्निके समान पुत्रशोक उत्पन्न हुआ है, उसे विचाररूप जलसे सर्वदा शान्त करते रहो।”

वैशम्पायनजी कहते हैं—अजुलित तेजस्वी व्यासजीके ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्रने कुछ देर विचार किया, इसके बाद वे बोले, 'द्विजवर! मुझे महान् शोकजालने सब ओरसे जकड़ रखा है, मेरो बुद्धि ठिकाने नहीं है और बार-बार मूर्च्छा-सी आ जाती है। अब आपका यह उपदेश सुनकर मैं प्राण धारण करता हुआ दयासम्भव शोक न करनेका प्रयत्न करूँगा।’

राजा धृतराष्ट्रके ये वचन सुनकर सत्यवतीनन्दन भगवान् व्यास वहाँ अन्तर्धान हो गये।

समयकी बात है, एक बार मैं इन्द्रकी समामें गया था। वहाँ मैंने सब देवताओंको इकट्ठे हुए देखा। उस समय एक विशेष प्रयोजनसे पृथ्वी उनके पास आयी और उनसे कहने लगी, 'देवगण! आपलोगोंने मेरा जो काम करनेके लिये ऋक्षाजीकी समामें प्रतिज्ञा की थी, उसे अब शीघ्र ही पूरा कर दीजिये।' उसकी-यह बात सुनकर भगवान् विष्णुने कहा, 'राजा धृतराष्ट्रके ती पुत्रोंमें जो सबसे बड़ा दुर्घोषण है, वह तेरा काम करेगा। उसके निमित्तसे अनेको राजा कुत्सोधर्ममें आकर अपने सुदृढ़ शास्त्रोंके प्रहारसे एक-दूसरेका संहार कर डालेंगे। इस प्रकार उस युद्धमें तेरा सारा भार उतर जायगा। अब तू शीघ्र ही जा और सब लोकोंको धारण कर।’

“राजन्! तुम्हारा पुत्र जो दुर्घोषण था, उसके रूपमें कल्तिके अंशने ही गान्धारीके गर्भसे जन्म लिया था। इसीसे वह ऐसा असहनशील, चञ्चल, श्रेष्ठी और कूटनीतिसे काम लेनेवाला था। दैवयोगसे उसके भाई भी ऐसे ही उत्पन्न हुए और मामा शकुनि तथा परम मित्र कर्ण भी ऐसे ही मिस गये। ये सब पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही एक साथ उत्पन्न हुए थे। जैसा राजा होता है, वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। यदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मा सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं। सेवकोंकी प्रवृत्ति स्वामीके गुण-दोषोंके अनुसार होती है—इसमें संदेह नहीं। राजन्! दुष्ट राजाका संसर्ग होनेसे ही तुम्हारे और पुत्र भी मारे गये।

विदुरजीके समक्षानेसे राजा धृतराष्ट्रका कुलकुलकी स्त्रियोंके साथ कुरुक्षेत्रकी ओर जाना तथा रास्तेमें कृपाचार्य आदिसे उनकी भेंट होना

जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! भगवान् व्यासके बने जानेपर राजा धृतराष्ट्रने क्या किया ? तथा महानना राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीन औरव महारथियोंने भी क्या किया ? इसके सिवा सञ्जयने भी जो कुछ कहा हो, वह मुझे सुनानेकी कृपा करें।

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! जब दुष्योधन नारा गया और सारी सेनाका नारा हो गया तो सञ्जयकी दृष्टि भी जाती रही और वह राजा धृतराष्ट्रके पास जाकर कहने लगा, 'महाराज ! देवदेवसे अनेकों राजा जाकर आपके पुत्रोंके साथ निकलनेकी प्रत्यादा कर गये। इसलिये अब आप अपने पुत्रभ्रातृ और चाचा-नातक आदि समीका क्रमसे प्रेत-कर्म कराइये।'

सञ्जयकी यह दुःखनयी बाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राणहीनने होकर पृथ्वीपर गिर गये। उस समय विदुरजीने उनसे कहा, 'भरतभ्रष्ट ! उठिये, इस प्रकार क्यों पड़े हैं ? शोक न कीजिये। संसारमें सब जीवोंकी अन्तमें यही गति होती है। प्राणी न तो जन्मने पहले होते हैं और न अन्तमें ही रहते हैं, केवल बीचमें ही उनकी प्रतीति होती है; इसलिये इनके लिये क्या शोक किया जाय ? तथा इन मूढ़में मरे हुए विन राजाओंके लिये आप शोक करते हैं, वे तो वस्तुतः शोकके योग्य हैं भी नहीं; क्योंकि उन सबने स्वर्गलोक प्राप्त किया है। शूद्रोंको संश्रममें शरीर त्यागनेसे जंती स्वर्गप्राप्ति होती है, वैसे तो बड़े-बड़ी दक्षिणाओंवाले यत्न करनेसे, तपस्यासे और विद्याभ्याससे भी नहीं हो सकती। इन्होंने मूढ़में शत्रुओंका सामना करते हुए प्राण त्यागे हैं; इसलिये इनके लिये क्या शोक किया जाय ? राजन् ! यह बात तो मैंने पहले भी आपसे कही थी कि सत्रियके लिये मूढ़ने बड़ेकर इस लोकमें स्वर्ग-प्राप्तिका कोई और साधन नहीं है। इसलिये आप अपने मनको धैर्य बंधाइये और शोक करना छोड़िये।'

विदुरजीकी यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्रने रथ सोतनेकी आज्ञा देकर कहा, 'गान्धारीको और भरतवंशकी सब स्त्रियोंको जल्दी ही ले आओ तथा बधू कुलकी साथ लेकर वहाँ जो दूसरी स्त्रियाँ हों, उन्हें भी बुला लो।' धर्मन विदुरजीने ऐसा कहकर वे रथपर सवार हुए। उस समय भी शोकके कारण वे संतापग्रस्त हो रहे थे। गान्धारीका भी पुत्ररोंके कारण बुरा हाल था। पतिकी आज्ञा पाकर वह इन्ती तथा दूसरी स्त्रियोंके साथ उनके पास आयी। वहाँ

पहुँचकर वे सब अत्यन्त शोकातुर होकर एक-दूसरीसे बिदा लेकर वहाँ आयी और बड़े जोरसे विलाप करने लगीं। इस आर्तनादने विदुरजीको यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुल कर दिया था, तो भी उन्होंने उन्हें धीरज बंधाया और सब स्त्रियोंको रथपर चढ़ाकर नगरसे बाहर आये। अब तो कुरु-वंशियोंके सभी घरमें कोलाहल मच गया तथा बूढ़से लेकर बालकतक सभी शोकाकुल हो गये। जिन स्त्रियोंपर पहले कर्मो देवताओंकी भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अब पतिपोक नारे जानेपर वे सामान्य पुरुषोंके भी सामने आ गयीं। उन्होंने बाल खोल दिये थे, बालूषण उतार डाले थे तथा केवल एक साड़ी पहने वे अनायासी होकर रथनूमिकाँ ओर जा रही थीं। पहले जिन्हें अपनी सत्रियोंके आगे भी एक साड़ी पहनकर निकलनेमें संकोच होता था, इस समय वे ही अपने सात-सुपुत्रके सामने इस वीन वेषमें चल रही थीं। ऐसी हजारों स्त्रियोंके बदन करते हुए राजा धृतराष्ट्रको घेर रक्ता था। उनके साथ अत्यन्त व्याकुल होकर वे रणक्षेत्रकी ओर चले।

इस प्रकार वे हस्तिनपुरसे एक ही कीलकी दूरीपर पहुँचे होंगे कि उन्हें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अरवत्याना—



ये तीनों महारथी मिले। राजा धृतराष्ट्रको देखते ही उनका हृदय भर आया और वे आँसुओं में आँसु भरकर संबो-संबो साँस लेते हुए कहने लगे, 'भरतधेष्ठ! दुर्योधनकी सेनाओं में केवल हम तीन ही बचे हैं। बाकी आपकी सारी सेना नष्ट हो गयी।' इसके बाद कृपाचार्यने गान्धारीसे कहा, 'गान्धारी! तुम्हारे पुत्रोंने निमंत्रण होकर युद्ध किया है और अनेकों शत्रुओंको रणभूमिमें मारया है। इस प्रकार अनेकों योरोचित कर्म करते हुए ही वे संग्राममें काम आये हैं। अब वे तेजोमय शरीर धारण करके स्वर्गमें देवताओंके समान बिहार करते हैं। तुम्हारे शूरवीर पुत्रोंमेंसे ऐसा कोई भी नहीं था, जो युद्धसे पीठ दिखाते हुए मारा गया हो। हमारे प्राचीन ऋषियोंने संग्राममें शस्त्रसे मारा जाना क्षत्रियोंके लिये परमगतिका कारण बताया है। इसलिये तुम उनके लिये शोक मत करो। एक बात और है, उनके शत्रु पाण्डवबलोग चँनसे रहे हैं—ऐसी बात भी नहीं है। अश्वत्थामा आदि हम तीन महारथियोंने जो काम किया है, यह भी मुन ली। जिस समय हमने मुना कि भीमसेनने अधर्मपूर्वक तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको मारा है तो हम पाण्डवोंके नाँवमें बेहोश हुए शिबिरमें घुस गये और वहाँ भीषण मार-काट मचा दी। इस प्रकार हमने धृष्टद्युम्नादि सभी पाञ्चालोंको तथा द्रुपद और द्रौपदीके पुत्रोंको मार डाला है। इस तरह तुम्हारे पुत्रके शत्रुओंका संहार करके हम भागे जा

रहे हैं, क्योंकि हम तीन ही पाण्डवोंके सामने संग्राममें नहीं ठहर सकेंगे। पाण्डव बड़े शूरवीर और महान् धनुषंर हैं। इस समय अपने पुत्रोंको मृत्युका समाचार पाकर वे क्रोधमें भरकर हमारे परोंके बिल्कुल देखते हुए इस वंशका बदला चुकानेके लिये बड़ी तेजीसे हमारा पीछा करेंगे। उन सबका संहार करके अब हमारी यह हिम्मत नहीं है कि पाण्डवोंका सामना कर सकें। इसलिये राती! तुम हमें—यहाँसे जानेकी आज्ञा दो और अपने मनको शोककुस मत करो। राजन्! आप भी हमें जानेकी आज्ञा दीजिये और क्षात्रधर्मपर विचार करके अच्छी तरह धर्म धारण कीजिये।'

राजा धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा—तीनोंने बड़ी तेजीसे गङ्गाजीकी ओर अपने घोड़े बढ़ाये। कुछ दूर निकल जानेपर ये तीनों महारथी आपसमें सलाह करके अलग-अलग रास्तोंसे चले गये। कृपाचार्य हस्तिनापुरको चल दिये, कृतवर्मा अपने देशकी ओर चला गया और अश्वत्थामाने ध्यासाधमकी राह ली। इस प्रकार महात्मा पाण्डवोंका अपराध करनेके कारण भयभीत होकर वे तीनों धीरे-धीरे एक-दूसरेकी ओर देखते हुए भिन्न-भिन्न स्थानोंको चले गये। इसके कुछ ही दिनों बाद पाण्डवोंने अश्वत्थामाके पास पहुँचकर उसे अपने पराक्रमसे संग्राममें परास्त किया था।

पाण्डवोंका राजा धृतराष्ट्र और गान्धारीसे मिलना, गान्धारीका भीमसेनपर क्रोध तथा व्यासजी और भीमसेनका उसे शान्त करना

श्रीवैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! इधर महाराज युधिष्ठिरने मुना कि हमारे बड़े ताड़जी संग्राममें मरे हुए वीरोंका अन्त्येष्टिकर्म करानेके लिये हस्तिनापुरसे चल दिये हैं। तब ये शोककुल धृतराष्ट्रके पास अपने भाइयोंको लेकर चले। इस समय श्रीकृष्ण, सात्यकि और द्रुपद भी उनके साथ ही लिये तथा पाञ्चालमहिलाओंके साथ द्रौपदीने भी उनका अनुसरण किया। गङ्गातटपर पहुँचकर राजा युधिष्ठिरने कुरुरीकी तरह विलाप करती हुई स्त्रियोंके अनेकों दूय देखे। वहाँ हाथ उठाकर आलस्यसे रोती हुई हजारों स्त्रियोंने—उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। वे कहने लगीं, 'राजन्! आज आपकी धर्मज्ञता और दयालुता कहाँ चली गयी जो इस तरह अपने घाघा, ताड़, भाई, गुरु, पुत्र

और मित्रोंको भी मार डाला। इन सबको और अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पुत्रोंको भी लेकर अब आप इस राग्यको लेकर क्या करेंगे?'

इस प्रकार रोती हुई उन सब स्त्रियोंको पार करके महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पितृव्य राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँचे और उनके चरणोंमें प्रणाम किया। इसके बाद उनके अन्य साथियोंने भी धर्मनुसार धृतराष्ट्रको प्रणाम करके अपने-अपने नाम लिये। महाराज पुत्रमोक्षसे अत्यन्त व्याकुल थे। उन्होंने उदास चित्तसे युधिष्ठिरको गले लगाया। फिर उनका चित्त एकदम कठोर हो गया और वे अग्निके समान भीमको मर्म कर डालनेका विचार करने लगे। श्रीकृष्ण पहले ही उनका अभिप्राय ताड़ गये थे। इसलिये उन्होंने



भीमसेनको हाथोंसे पकड़कर रोक लिया और भीमकी एक लोहेकी मूर्ति आगे कर दी। राजा धृतराष्ट्र बड़े वली थे। उन्होंने लोहेके भीमको ही सच्चा भीमसेन समझकर अपनी भुजाओंसे दबोचकर तोड़ डाला। धृतराष्ट्रमें दस हजार हाथियोंका बल था; इसलिये उन्होंने लोहेके भीमको तोड़ तो डाला, परंतु इससे उनकी छातीपर बहुत दबाव पड़नेसे उनके मुँहसे खून निकलने लगा और वे खूनमें लथपथ होकर पृथ्वीपर गिर गये। उस समय सञ्जयने उन्हें थामकर शान्त किया। क्रोध शान्त होते ही वे अत्यन्त शोकाकुल हुए और 'हा भीम! हा भीम!' कहकर रोने लगे।

जब श्रीकृष्णने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है और भीमसेनका वध कर डालनेकी आशङ्कासे ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं तो उन्होंने कहा, 'राजन्! आप शोक न करें। आपके हाथसे भीमसेनका वध नहीं हुआ है। यह तो उनकी लोहेकी मूर्ति ही है, इसीको आपने कुचल डाला है। आपको क्रोधके वशीभूत देखकर मैंने भीमसेनको आपके पास जानेसे रोक लिया था। जिस प्रकार कालके पास पहुँचकर कोई जीता नहीं बच सकता, उसी प्रकार आपको भुजाओंके बीचमें पड़कर किसीके प्राण नहीं बच सकते। यही सोचकर, आपके पुत्रने भीमसेनकी जो लोहेकी मूर्ति बनवा रखी थी वही मैंने आपके आगे कर दी थी। पुत्रशोककी आगने आपके मनको धर्मसे विचलित कर दिया है, इसीसे

आपको भीमसेनका वध करनेकी इच्छा हुई थी। किंतु आपके लिये यह उचित नहीं है कि आप भीमका वध करें। अतः हमने सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेके उद्देश्यसे जो कुछ किया है उसका आप भी अनुमोदन करें, मनको व्यर्थ शोकाकुल न करें। राजन्! आपने वेद और सभी शास्त्रोंका अध्ययन किया है तथा पुराण और सब प्रकारके राजधर्म भी सुने हैं। ऐसे विद्वान् और बुद्धिमान् होकर भी आप अपने ही अपराधसे होनेवाले इस कुटुम्बनाशकी देखकर इतने कुपित क्यों होते हैं। मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था और भीष्म, द्रोण, विदुर एवं सञ्जयने भी बहुत कुछ समझाया था; किंतु उस समय तो आपने हमारी बात मानी नहीं। जो पुरुष हितकी बात समझनेपर भी अपने हिताहितको नहीं परख पाता, वह अन्यायका आश्रय लेनेसे आपत्तियोंके आनेपर शोक ही करता है। इस आपत्तिमें तो आप अपने ही अपराधसे पड़े हैं, फिर भीमसेनपर क्रोध क्यों करते हैं। दुर्योधनने ईर्ष्यावश द्रौपदीको सभामें दलवाया था; उस चरका बदला लेनेके लिये ही तो भीमसेनने उसे मारा है। आप अपने और अपने दुष्ट पुत्रके अपराधोंकी ओर तो देखिये। आपहीने तो निर्दोष पाण्डवोंको राज्यसे निकलवाया था।'

राजन्! इत प्रकार श्रीकृष्णने जब साफ-साफ सब बातें कहीं तो राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, 'माघव! तुम जैसा कहते हो, वह सब ठीक है। यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक लेनेसे भीमसेन मेरी भुजाओंके बीचमें नहीं आया। अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरा क्रोध शान्त हो गया है और मैं पाण्डुके शूरवीर मध्यम पुत्रकी देखना चाहता हूँ। मेरे सब पुत्र और प्रधान-प्रधान राजालोग तो मारे गये। अब तो मेरी शान्ति और प्रीतिके आश्रय ये पाण्डुपुत्र ही हैं।' ऐसा कहकर उन्होंने भीम-अर्जुन और नकुल-सहदेव—सभीको रोते-रोते गले लगाया और 'तुम्हारा कल्याण हो' ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया।

इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पाण्डव श्रीकृष्णके साथ गान्धारीके पास आये। पाण्डवोंके प्रति गान्धारीके मनमें पाप है—इस बातको महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गये थे। इसलिये वे बड़ी तेजीसे वहाँ पहुँचे। वे दिव्य दृष्टिसे और अपने मनकी एकाग्रतासे सभी प्राणियोंका आन्तरिक भाव समझ लेते थे। इसलिये गान्धारीके पास जाकर उससे कहने लगे, 'गान्धारी! तुम पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर क्रोध मत करो, शान्त हो जाओ। तुम जो बात मुँहसे निकालना चाहती हो, उसे रोक लो और मेरी बातपर ध्यान दो। गत अठारह दिनोंमें तुम्हारा विजयाभिलाषी पुत्र नित्य ही तुमसे यह प्रार्थना करता था कि 'मैं शत्रुओंके साथ संग्राम करनेके



लिये जा रहा है; माताजी ! मेरे कल्याणके लिये आप मुझे आशीर्वाद दीजिये ।' उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर तुम हर बार यही कहती थी कि 'जहाँ धर्म है, वहीं विजय है ।' इस प्रकार पहले तुम्हारे मुँहसे जो सच्ची बात निकलती थी, वह मुझे याद आती है । यों भी तुम सब प्राणियोंका हित चाहनेवाली हो । इस समय पाण्डवोंने विजय पायी है और इसमें संदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं । तुम तो सदासे ही बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने समाको क्यों छोड़ दिया है ? धर्मज्ञ ! तुम अधर्मको छोड़ दो; क्योंकि तुमने अपने धर्मपर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कहे थे कि 'जहाँ धर्म है, वहीं विजय है ।' अतः तुम अपने शोधको शान्त करो । तुम सत्य-भाषण करनेवाली हो, तुम्हारा ऐसा आवरण नहीं होना चाहिये ।"

गान्धारीने कहा—भगवन् ! पाण्डवोंके प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और न मैं इनका नाश ही चाहती हूँ । किन्तु पुत्रशोकके कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल-सा हो रहा है । इन कुन्तीपुत्रोंके रक्षा करना जैसा कुन्तीका कर्तव्य है, वैसा ही मेरा भी है और जैसा यह मेरा कर्तव्य है, वैसा ही महाराजका भी है । यह कौरवोंका संहार तो दुर्योधन, शकुनि, कर्ण और दुःशासनके अपराधसे ही हुआ है । इसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिरका कोई भी दोष नहीं है । कौरवोंने अभिमानमें भरकर युद्ध किया और वे

अपने दूसरे सापियोंके सहित आपसहीमें लड़ रहे । किन्तु साहसी भीमने दुर्योधनको गदायुद्धके लिये बुलाकर फिर श्रीकृष्णके सामने ही उसको नाभिके नीचे गदाकी चोट की— इस अनूचित कार्यने ही मेरे शोधको भड़का दिया है । धर्मज्ञ महापुरुषोंने जिसे 'धर्म' कहा है, उसे क्या शूरवीर अपने प्राणोंके लोभसे भी रणभूमिमें छोड़ सकते हैं ?

गान्धारीजी यह बात सुनकर भीमसेनने बहुत डरते-डरते उससे विनयपूर्वक कहा, 'माताजी ! यह धर्म ही अथवा अधर्म, मैंने तो डरकर अपनी रक्षाके लिये ही ऐसा किया था, सो अब आप क्षमा करें । आपके उस महाबली पुत्रको धर्मयुद्धमें तो कोई भी नहीं मार सकता था । किन्तु पहले उसने भी तो अधर्मने ही राजा युधिष्ठिरको जीता था और हमें बार-बार तंग किया था । इस समय भी मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन गदायुद्धमें मुझे मार न डाले, इसीसे मैंने यह काम कर डाला । देखो, आपके पुत्रने तो हमारा बहुत ही अप्रिय किया था । उसने भरी समामें द्रौपदीको अपनी यार्यों जाँघ दिलायी थी । हमें तो उसी समय उसे मार डालना चाहिये था, किन्तु धर्मराजको आज्ञासे हम चुपचाप बंटे रहे । पीछे उसने वरकी बहुत ही बड़ा दिया और वनमें रहते समय हमें सदा ही दुःख देता रहा । इसीसे मुझसे भी ऐसा काम हो गया ।'

गान्धारीने कहा—भैया ! तुम मेरे पुत्रकी ऐसी प्रशंसा कर रहे हो, इसलिये यह तो उसका वध ही नहीं कहा जा सकता । परन्तु तुमने जो संग्रामभूमिमें दुःशासनका खून पिया, उस कामको तो सभी सत्पुरुष निन्दा करेंगे; ऐसा काम आर्यपुरुष तो कभी नहीं करते । तुमने यह बड़ा ही क्रूर कर्म किया, ऐसा करना उचित नहीं था ।

भीमसेन बोले—माताजी ! आप चिन्ता न करें । वह खून मेरे दाँत और ओठोंसे आगे नहीं गया । इस बातको कर्ण जानता था । मैंने तो अपने हाथ ही खूनमें सान लिये थे । जब द्यूतक्रीडाके समय दुःशासनने द्रौपदीके केश पकड़े थे, उसी समय शोधमें भरकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था । यदि मैं उसे पूरा न करता तो अनन्त वर्षोंतक दाम-धर्मसे पतित समझा जाता । इसीसे मैंने यह काम किया था ।

गान्धारीने कहा—भीम ! हम अब डूढ़े हो गये हैं, हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया । ऐसी स्थितिमें हम दोनों अंधोंके सहारेके लिये लकड़ीके समान तुमने एक भी पुत्रको जीवित क्यों नहीं छोड़ा ? यदि तुम मेरे एक पुत्रको भी छोड़ देते तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुःख न पाती, यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्मका पालन किया है ।



आपको भीमसेनका वध करनेकी इच्छा हुई थी। किंतु आपके लिये यह उचित नहीं है कि आप भीमका वध करें। अतः हमने सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेके उद्देश्यसे जो कुछ किया है उसका आप भी अनुमोदन करें, मनको व्यर्थ शोकाकुल न करें। राजन्! आपने वेद और सभी शास्त्रोंका अध्ययन किया है तथा पुराण और सब प्रकारके राजधर्म भी सुने हैं। ऐसे विद्वान् और बुद्धिमान् होकर भी आप अपने ही अपराधसे होनेवाले इस कुटुम्बनाशको देखकर इतने कुपित क्यों होते हैं। मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था और भीष्म, द्रोण, विदुर एवं सञ्जयने भी बहुत कुछ समझाया था; किंतु उस समय तो आपने हमारी बात मानी नहीं। जो पुरुष हितकी बात समझानेपर भी अपने हितहितको नहीं परख पाता, वह अन्यायका आश्रय लेनेसे आपत्तियोंके आनेपर शोक ही करता है। इस आपत्तिमें तो आप अपने ही अपराधसे पड़े हैं, फिर भीमसेनपर क्रोध क्यों करते हैं। दुर्योधनने ईर्ष्याविश द्रौपदीको सभामें चुलवाया था; उस वरका बबला लेनेके लिये ही तो भीमसेनने उसे मारा है। आप अपने और अपने दुष्ट पुत्रके अपराधोंकी ओर तो देखिये। आपहीने तो निर्दोष पाण्डवोंको राज्यसे निकलवाया था।

राजन्! इस प्रकार श्रीकृष्णने जब साफ-साफ सब बातें कहीं तो राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, 'माघव! तुम जैसा कहते हो, वह सब ठीक है। यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक लेनेसे भीमसेन मेरी भुजाओंके बीचमें नहीं आया। अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरा क्रोध शान्त हो गया है और मैं पाण्डुके शूरवीर मध्यम पुत्रको देखना चाहता हूँ। मेरे सब पुत्र और प्रधान-प्रधान राजालोग तो मारे गये। अब तो मेरी शान्ति और प्रीतिके आश्रय ये पाण्डुपुत्र ही हैं।' ऐसा कहकर उन्होंने भीम-अर्जुन और नकुल-सहदेव—सभीको रोते-रोते गले लगाया और 'तुम्हारा कल्याण हो' ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया।

इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पाण्डव श्रीकृष्णके साथ गान्धारीके पास आये। पाण्डवोंके प्रति गान्धारीके मनमें पाप है—इस बातको मर्हाय व्यास पहले ही ताड़ गये थे। इसलिये वे बड़ी तेजीसे वहाँ पहुँचे। वे दिव्य दृष्टिसे और अपने मनकी एकाग्रतासे सभी प्राणियोंका आन्तरिक भाव समझ लेते थे। इसलिये गान्धारीके पास जाकर उससे कहने लगे, 'गान्धारी! तुम पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर क्रोध मत करो, शान्त हो जाओ। तुम जो बात मुँहसे निकालना चाहती हो, उसे रोक लो और मेरी बातपर ध्यान दो। गत अठारह दिनोंमें तुम्हारा विजयाभिलाषी पुत्र नित्य ही तुमसे यह प्रार्थना करता था कि 'मैं शत्रुओंके साथ संग्राम करनेके

भीमसेनको हाथोंसे पकड़कर रोक लिया और भीमको एक लोहेकी मूर्ति आगे कर दी। राजा धृतराष्ट्र बड़े वली थे। उन्होंने लोहेके भीमको ही सच्चा भीमसेन समझकर अपनी भुजाओंसे दबोचकर तोड़ डाला। धृतराष्ट्रमें दस हजार हाथियोंका बल था; इसलिये उन्होंने लोहेके भीमको तोड़ तो डाला, परंतु इससे उनकी छातीपर बहुत दबाव पड़नेसे उनके मुँहसे खून निकलने लगा और वे खूनमें लथपथ होकर पृथ्वीपर गिर गये। उस समय सञ्जयने उन्हें थामकर शान्त किया। क्रोध शान्त होते ही वे अत्यन्त शोकाकुल हुए और 'हा भीम! हा भीम!' कहकर रोने लगे।

जब श्रीकृष्णने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है और भीमसेनका वध कर डालनेकी आशङ्कासे ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं तो उन्होंने कहा, 'राजन्! आप शोक न करें। आपके हाथसे भीमसेनका वध नहीं हुआ है। यह तो उनकी लोहेकी मूर्ति ही है; इसीको आपने कुचल डाला है। आपको क्रोधके वशीभूत देखकर मैंने भीमसेनको आपके पास जानेसे रोक लिया था। जिस प्रकार कालके पास पहुँचकर कोई जीता नहीं बच सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाओंके बीचमें पड़कर किसीके प्राण नहीं बच सकते। यही सोचकर, आपके पुत्रने भीमसेनकी जो लोहेकी मूर्ति बनवा रक्खी थी वही मैंने आपके आगे कर दी थी। पुत्रशोककी आगने आपके मनको धर्मसे विचलित कर दिया है, इसीसे



लिये जा रहा हूँ; माताजी ! मेरे कल्याणके लिये आप मुझे आशीर्वाद दीजिये ।' उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर तुम दूर धार यही कहती थी कि 'जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है ।' इस प्रकार पहले तुम्हारे मुँहसे जो सच्ची बात निकलती थी, वह मुझे याद आती है । यों भी तुम सब प्राणियोंका हित चाहनेवाली हो । इस समय पाण्डवोंने विजय पायो है और इतने संदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं । तुम तो सदासे ही बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमाको क्यों छोड़ दिया है ? धर्मते ! तुम अधर्मको छोड़ दो; क्योंकि तुमने अपने धर्मपर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कहे थे कि 'जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है ।' अतः तुम अपने कोषको शान्त करो । तुम सत्य-भाषण करनेवाली हो, तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिये ।'

गान्धारीने कहा—भगवन् ! पाण्डवोंके प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और न मैं इनका नाश ही चाहती हूँ । किन्तु पुत्रहानिके कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल-सा हो रहा है । इन कुन्तीपुत्रोंकी रक्षा करना जैसा कुन्तीका कर्तव्य है, वैसा ही मेरा भी है और जैसा यह मेरा कर्तव्य है, वैसा ही महाराजका भी है । यह कौरवोंका संहार तो दुर्योधन, शकुनि, कर्ण और दुःशासनके अपराधसे ही हुआ है । इसमें कर्ण, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिरका कोई भी दोष नहीं है । कौरवोंने अभिमानमें भरकर यद्द किया और वे

अपने दूसरे सार्वभौमिके सहित आपसमें लड़ भरे । किन्तु साहसी भीमने दुर्योधनको गदायुद्धके लिये बुलाकर फिर श्रीकृष्णके सामने ही उसकी नामिके नीचे गदाकी चोट की— इस अनुचित कार्यने ही मेरे श्रोत्रको भड़का दिया है । धर्म महापुरुषोंने जिसे 'धर्म' कहा है, उसे क्या शूरवीर अपने प्राणोंके लोभसे भी रणभूमिमें छोड़ सकते हैं ?

गान्धारीकी यह बात सुनकर भीमसेनने बहुत डरते-डरते उससे विनयपूर्वक कहा, 'माताजी ! यह धर्म ही अथवा अधर्म, मैंने तो डरकर अपनी रक्षाके लिये ही ऐसा किया था, सो भ्रव आप क्षमा करें । आपके उस महावली पुत्रको धर्मयुद्धमें तो कोई भी नहीं मार सकता था । किन्तु पहले उसने भी तो अधर्मसे ही राजा युधिष्ठिरको जीता था और हमें बार-बार तंग किया था । इस समय भी मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन गदायुद्धमें मुझे मार न डाले, इसीसे मैंने यह काम कर डाला । देखो, आपके पुत्रने तो हमारा बहुत ही अप्रिय किया था । उसने भरी समामें द्रौपदीको अपनी बर्बाद जांच दिखायी थी । हमें तो उसी समय उसे मार डालना चाहिये था, किन्तु धर्मराजको आज्ञासे हम चुपचाप बैठे रहे । पीछे उसने वरको बहुत ही बड़ा दिया और वनमें रहते समय हमें सदा ही दुःख देता रहा । इसीसे मुझसे भी ऐसा काम हो गया ।'

गान्धारीने कहा—भैया ! तुम मेरे पुत्रको ऐसी प्रशंसा कर रहे हो, इसलिये यह तो उसका वध ही नहीं कहा जा सकता । परंतु तुमने जो संग्रामभूमिमें दुःशासनका खून पिया, उस कामकी तो सभी सत्यरूप निन्दा करेंगे; ऐसा काम आर्यपुरुष तो कभी नहीं करते । तुमने यह बड़ा ही क्रूर कर्म किया, ऐसा करना उचित नहीं था ।

भीमसेन बोले—माताजी ! आप चिन्ता न करें । वह खून मेरे दाँत और ओठोंसे आगे नहीं गया । इस बातको कर्ण जानता था । मैंने तो अपने हाथ ही खूनमें सान लिये थे । जब द्यूतक्रोडाके समय दुःशासनने द्रौपदीके केश पकड़े थे, उसी समय श्रोत्रमें भरकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था । यदि मैं उसे पूरा न करता तो अनन्त व्योमक द्वाप-धर्मसे पतित समझा जाता । इसीसे मैंने यह काम किया था ।

गान्धारीने कहा—भीम ! हम जब बूढ़े हो गये हैं, हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया । ऐसी स्थितिमें हम दोनों अंधोंके सहारेके लिये लकड़ीके समान तुमने एक भी पुत्रको जीवित क्यों नहीं छोड़ा ? यदि तुम मेरे एक पुत्रको भी छोड़ देते तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुःख न पाती, यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्मका पालन किया है ।

भीमसेनसे ऐसा कहकर अपने पुत्र-पौत्रोंके नाशसे पीडिता गान्धारी क्रोधमें भरकर बोली—‘राजा युधिष्ठिर कहाँ है?’ यह सुनते ही धर्मराज भयसे कांपते हुए हाथ जोड़े उसके सामने आये और बड़ी मोटी वाणीमें बोले, ‘देवि !



और वह अञ्चलसे मुख ढाँककर आँसू वहाने लगी। उसके साथ पाण्डवोंकी आँखोंमें भी आँसू आ गये। उसने प्रत्येक पुत्रके अङ्गोंपर बार-बार हाथ फेरकर देखा। सभीके शरीर शस्त्रोंकी चोटोंसे घायल हो रहे थे। पुत्रहीना द्रौपदीको देखकर तो उसे बड़ा ही अनुताप हुआ। उसने देखा कि पाञ्चालकुमारी पृथ्वीपर पड़ी-पड़ी रो रही है।

द्रौपदी कह रही थी—आयें! अभिमन्युके सहित आज आपके सभी पौत्र कहाँ चले गये। अब जब मेरे बच्चे ही नहीं बचे तो मैं राज्यको लेकर क्या करूँगी ?

तब कुन्तीने उसे धैर्य बँधाया। इसके बाद वह शोकाकुला द्रौपदीको उठाकर अपने साथ ले गान्धारीके पास आयी। उसके साथ ही सब पाण्डव भी वहाँ पहुँचे। तब गान्धारीने वह द्रौपदी और यज्ञस्विनी कुन्तीसे कहा, ‘बेटी ! इस प्रकार शोकाकुल मत हो; मेरी ओर तो देख, मुझपर कैसा दुःखका पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो इस लोकसंहारको



आपके पुत्रोंका संहार करानेवाला मैं क्रूरकर्मा युधिष्ठिर सामने खड़ा हूँ। पृथ्वीभरके राजाओंका नाश करानेमें मैं ही हेतु हूँ, इसलिये शापके योग्य हूँ; आप मुझे शाप दीजिये। मैं अपने मुहुदोंका शत्रु हूँ; अतः ऐसे-ऐसे बन्धुओंका संहार कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या धन—किसीकी भी इच्छा नहीं है।’

महाराज युधिष्ठिर गान्धारीके पास खड़े हुए ये सब बातें कह गये। किंतु उसके मुँहसे कोई बात न निकली। वह बार-बार लंबी-लंबी साँसें लेती रही। वे झुककर उसके चरणोंमें गिरना ही चाहते थे कि दीर्घदर्शिनो गान्धारीकी दृष्टि पट्टीमेंसे होकर उनके नखोंपर पड़ी। इससे उनके सुन्दर नख उसी समय काले पड़ गये। यह देखते ही अर्जुन तो श्रीकृष्णके पीछे खिसक गये तथा और भाई भी इधर-उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाते देखकर गान्धारीका क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने माताके समान उन्हें धीरज दिया। फिर उसकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुन्तीके पास गये। कुन्तीने अपने पुत्रोंको बहुत दिनोंपर देखा था, इसलिये उनके कर्णोंका स्मरण करके उसका हृदय भर आया

समयके उलट-फेरसे हुआ ही समझती हूँ। यह रोमाञ्चकारी काण्ड होना ही था, इसीसे हुआ है। विदुरजीने जो बात कही थी, वह ज्यों-की-त्यों सामने आ गयी। जैसी तू है, वैसी ही मैं भी हूँ। वता, कौन किसको धीरज बँधावे? वास्तवमें इस श्रेष्ठ कुलका संहार तो मेरे ही अपराधसे हुआ है।’

युद्धभूमिमें पहुँचकर स्त्रियोंका विलाप करना और गान्धारीका श्रीकृष्णसे उनकी दशका वर्णन करना

श्रीवैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! गान्धारी बड़ी ही पतिव्रता, भाग्यवती और तपस्विनी थी। वह सर्वदा सत्यमापण ही करती थी। महर्षि व्यासके घरसे उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी थी। उसके प्रभावसे उसे दूरहोसे कौरवोंका संहारभूमि दिखायी दे रही थी। उसे देखकर वह तरह-तरहसे विलाप करने लगी। बहुत दूर होनेपर भी उसे वह रणक्षेत्र पास ही-सा जान पड़ता था। वह बड़ा ही रोमाञ्चकारी था; हृष्टी, केसा और चर्बासे भरा हुआ था। उसमें खूनकी धाराएँ बह रही थीं; सब ओर सहस्रों लोपे पड़ी थीं तथा खूनमें लयपथ हाथी, घोड़े, रथ और योद्धाओंके मस्तकहीन शरीर एवं शरीरहीन मस्तक पड़े हुए थे।

अब भगवान् व्यासकी आज्ञा पाकर राजा मुधिष्ठिर आदि सब पाण्डव महाराज धृतराष्ट्र और श्रीकृष्णकी आगे कर कुटुकुलकी सब स्त्रियोंको लेकर रणक्षेत्रकी ओर चले। कुरक्षेत्रमें पहुँचकर उन विधवा स्त्रियोंके युद्धमें मरे हुए अपने भाई, पुत्र, पिता और पति आदिको देखा। उस भीषण संहारभूमिको देखकर वे राजमहिलाएँ चीत्कार करती हुई अपने बहुमूल्य रथोंसे गिर पड़ीं। इस अमृतपूर्व दृश्यको देखकर वे दुःखसे अत्यन्त व्याकुल हो गयीं। उनमेंसे किहोके तो शरीर मुरझा गये और कोई पृथ्वीपर पछाड़ खाने लगीं। वे बहुत थकी हुई थीं और अनाथ हो चुकी थीं। इस समय उन्हें कुछ भी होसा-हवास्त नहीं था। पाञ्चाल और कुटुकुलकी स्त्रियोंके लिये यह बड़ा ही कष्टपूर्ण प्रसंग था।

तब दुःखिनी अबलाओंके आर्तनादसे उस भीषण युद्धस्थलमें बड़ा कुहराम मचा देख घमंजा गान्धारीने श्रीकृष्णको बलाकर कहा, 'माघव ! देखो तो, मेरी ये विधवा बहूएँ बाल बिलेरे कुररियोंके समान विलाप कर रही हैं। ये उन भरतकुलमूषणोंको याद कर-करके अलग-अलग अपने पुत्र, भाई, पिता और पतियोंकी ओर दौड़कर जाती हैं। धीरवर ! इस ऐसे युद्धस्थलको देखकर तो मैं शोकसे जली जाती हूँ। मधुसूदन ! इन पाञ्चाल और कौरववीरोंके मारे जानेसे मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो पंचों भूतोंका ही नाश हो गया। क्या कोई पुत्र्य ऐसी कल्पना भी कर सकता था कि इस युद्धमें जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, भीष्म और अभिमन्यु-जैसे धीर भी स्वाहा हो जायेंगे ? अथवा ! मेरे लिये इससे बढ़कर और क्या दुःख होगा। अवश्य ही पहले जन्मोंमें मुझसे कोई पापकर्म हो गया है। इसीसे मुझे अपनी आँतों

अपने पुत्र, पौत्र और भाइयोंकी मृत्यु देखनी पड़ी है।' पुत्रशोकानुला गान्धारीने इसी प्रकार देवतापूर्वक विलाप करते हुए श्रीकृष्णसे कई बातें कहीं; इतनेहीमें उनकी दृष्टि अपने मृतक पुत्र दुर्योधनपर पड़ी।

दुर्योधनको मरा हुआ देखते ही शोकानुला गान्धारी बटे हुए केलेके समान सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ी। रोग आनेपर जब उसने दुर्योधनको खूनमें लयपथ हुए पृथ्वीपर पड़ा देखा तो वह उससे लिपटकर 'हा पुत्र ! हा पुत्र !' ऐसा कहकर रोने लगी। फिर उसे अपने आँसुओंसे सौंघती हुई श्रीकृष्णसे कहने लगी, 'वाण्य ! जब यह दन्धुओंका विध्वंस करनेवाला संग्राम ठन गया तो दुर्योधनने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था, 'माताजी ! मुझे आशीर्वाद दो कि इस युद्धमें मेरी विजय हो।' तब मैंने यही कहा था कि 'जय तो वहाँ रहती है, जहाँ धर्म रहता है; किंतु यदि तुम युद्ध करनेमें धरारये नहीं तो तुम्हें देवताओंके समान शस्त्रोंसे मरनेपर प्राप्त होनेवाले लोक अवश्य मिलेंगे।' इस प्रकार मैंने तो पहले ही दुर्योधनसे ऐसी बात कह दी थी। इसलिये मुझे इसके लिये शोक नहीं है। मुझमें तो महाराजके लिये चिन्ता है, जिनके सभी सम्बन्धी संग्राममें काम आ गये हैं। जरा कालके जलट-करके तो देखो ! जो दुर्योधन मूर्खामिषिवल राजाओंके आगे-आगे चलता था, आज वही धूलमें पड़ा हुआ है। आज वह वीरराज्यापर शत्रुके सामने झुँह किये पड़ा है, इसलिये इसे कोई साधारण गति नहीं मिली होगी। ओह ! जो ग्यारह अक्षीहिणी सेनाको लेकर युद्धके मंदानमें उतरा था, वह दुर्योधन अपने अन्यायसे ही आज मारा गया। यह अभाग्य बड़ा मूर्ख था ! इसने अपने पिता और विदुरजी-जैसे युद्ध पुरुषोंका अपमान किया, इसीसे आज कालके गालमें चला गया। जिसने तेरह घयंतक पृथ्वीका निष्कण्टक राज्य किया, वही मेरा पुत्र आज मरकर पृथ्वीपर सो रहा है। श्रीकृष्ण ! तुम सुवर्णकी वेदीके समान तेजस्विनी सधमणकी माताको तो देखो। आज उसके भी बाल बिलेरे हुए हैं। मेरी यह पुत्रवधू बड़े उदार हृदयकी है। पता नहीं इसकी स्थिति कैसी है। यह अपने पतिके लिये शोकाकुल है या पुत्रके लिये ? कभी यह पतिकी ओर देखती है तो कभी पुत्रकी ओर देखने लगती है। किंतु कुछ भी हो, यदि वेद धीर शास्त्र सत्त्वे हैं तो दुर्योधनने अवश्य ही अपने बाहुबलके प्रतापसे अधिनासी लोक प्राप्त किये होंगे।


भीमसेनसे ऐसा कहकर अपने पुत्र-पौत्रोंके नाशसे पीड़िता गान्धारी क्रोधमें भरकर बोली—‘राजा युधिष्ठिर कहाँ है?’ यह सुनते ही धर्मराज भयसे कांपते हुए हाथ जोड़े उसके सामने आये और बड़ी मीठी वाणीमें बोले, ‘देवि !



और वह अञ्चलसे मुख ढाँककर आँसू बहाने लगी। उसके साथ पाण्डवोंकी आँखोंमें भी आँसू आ गये। उसने प्रत्येक पुत्रके अङ्गोंपर बार-बार हाथ फेरकर देखा। सभीके शरीर शस्त्रोंकी चोटोंसे घायल हो रहे थे। पुत्रहीना द्रौपदीको देखकर तो उसे बड़ा ही अनुताप हुआ। उसने देखा कि पाञ्चालकुमारी पृथ्वीपर पड़ो-पड़ो रो रही है।

द्रौपदी कह रही थी—आयें! अभिमन्युके सहित आज आपके सनी पीत्र कहाँ चले गये। अब जब मेरे बच्चे ही नहीं बचे तो मैं राज्यको लेकर क्या करूँगी ?

तब कुन्तीने उसे धैर्य बँधाया। इसके बाद वह शोकाकुला द्रौपदीको उठाकर अपने साथ ले गान्धारीके पास आयी। उसके साथ ही सब पाण्डव भी वहाँ पहुँचे। तब गान्धारीने वह द्रौपदी और यशस्विनी कुन्तीसे कहा, ‘बेटी ! इस प्रकार शोकाकुल मत हो; मेरी ओर तो देख, मुझपर कंसा दुःखका पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो इस लोकसंहारको



आपके पुत्रोंका संहार करानेवाला मैं क्रूरकर्मा युधिष्ठिर सामने खड़ा हूँ। पृथ्वीभरके राजाओंका नाश करानेमें मैं ही हेतु हूँ, इसलिये शापके योग्य हूँ; आप मुझे शाप दीजिये। मैं अपने मुहोंका शत्रु हूँ; अतः ऐसे-ऐसे बन्धुओंका संहार कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या धन—किसीकी भी इच्छा नहीं है।’

महाराज युधिष्ठिर गान्धारीके पास खड़े हुए ये सब बातें कह गये। किंतु उसके मुँहसे कोई बात न निकली। वह बार-बार लंबी-लंबी साँसें लेती रही। वे झुककर उसके चरणोंमें गिरना ही चाहते थे कि दौर्धर्वाशनी गान्धारीकी दृष्टि पृथ्वीमेंसे होकर उनके नखोंपर पड़ी। इससे उनके सुन्दर नख उसी समय काले पड़ गये। यह देखते ही अर्जुन तो श्रीकृष्णके पीछे खिसक गये तथा और भाई भी इधर-उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाते देखकर गान्धारीका क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने माताके समान उन्हें धीरज दिया। फिर उसकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुन्तीके पास गये। कुन्तीने अपने पुत्रोंको बहुत दिनोंपर देखा था, इसलिये उनके कष्टोंका स्मरण करके उसका हृदय भर आया

समयके उलट-फेरसे हुआ ही समझती हूँ। यह रोमाञ्चकारी काण्ड होना ही था, इसीसे हुआ है। विदुरजीने जो बात कही थी, वह ज्यों-की-न्यों सामने आ गयी। जैसी तू है, वैसी ही मैं भी हूँ। वता, कौन किसको धीरज बँधावे? वास्तवमें इस श्रेष्ठ कुलका संहार तो मेरे ही अपराधसे हुआ है।’

युद्धभूमिमें पहुँचकर स्त्रियोंका विलाप करना और गान्धारीका श्रीकृष्णसे उनको दशाका वर्णन करना

श्रीशार्वर्षापायनजों कहते हैं—जनमेजय ! गान्धारी बड़ी ही पतिव्रता, भाग्यवती और तपस्विनी थी। वह सर्वदा सत्यभाषण ही करती थी। महर्षि व्यासके घरसे उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी थी। उसके प्रभावसे उसे दूरहोते कौरवोंको संहारभूमि दिलायी दे रही थी। उसे देखकर वह तरह-तरहसे विलाप करने लगी। बहुत दूर होनेपर भी उसे यह रणक्षेत्र पास ही-सा जान पड़ता था। वह बड़ा ही रोमाञ्चकारी था; हड़ो, केरा और चर्वीसे भरा हुआ था। उसमें लूनकी धाराएँ बह रही थीं; सब ओर सहलों तोमों पड़ी थीं तथा लूनमें लयपय हायी, घोड़े, रथ और घोड़ाओंके मस्तकहीन शरीर एवं शरीरहीन मस्तक पड़े हुए थे।

अब भगवान् व्यासकी आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर आदि सब पाण्डव महाराज धृतराष्ट्र और श्रीकृष्णको आगें कर कुटुम्बकी सब स्त्रियोंको लेकर रणक्षेत्रकी ओर चले। कुरक्षेत्रमें पहुँचकर उन विधवा स्त्रियोंमें युद्धमें मरे हुए अपने भाई, पुत्र, पिता और पति आदिको देखा। उस भीषण संहारभूमिको देखकर वे राजमहिताएँ चीत्कार करती हुई अपने बहुमूल्य रथोंसे गिर पड़ीं। इस अमूल्यपूर्ण दृश्यको देखकर वे दुःखसे अत्यन्त व्याकुल हो गयीं। उनमेंसे किन्हींके तो शरीर मुरझा गये और कोई पृथ्वीपर पछाड़ खाने लगीं। वे बहुत बकी हुई थीं और अनाथ हो चुकी थीं। इस समय उन्हें कुछ भी होश-हवास नहीं था। पाञ्चाल और कुटुम्बकी स्त्रियोंके लिये यह बड़ा ही कष्टपूर्ण प्रसंग था।

तब दुःखिनी अबलाओंके आसँनादसे उस भीषण युद्धस्थलमें बड़ा कुहराम मचा देख धर्मता गान्धारोने श्रीकृष्णको बुलाकर कहा, 'माधव ! देखो तो, मेरी ये विधवा बहूएँ बाल बिलखेरे कुररियोंके समान विलाप कर रही हैं। ये उन मरतकुलमूयणोंको याद कर-करके अलग-अलग अपने पुत्र, भाई, पिता और पतियोंकी ओर दौड़कर जाती हैं। वीरवर ! इस ऐसे युद्धस्थलको देखकर तो मैं शोकसे जती जाती हूँ। मधुसूदन ! इन पाञ्चाल और कौरववीरोके मारे जानेसे मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो पाँचों भूतोंका ही नाश हो गया। क्या कोई पुरुष ऐसी कल्पना भी कर सकता था कि इस युद्धमें जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, भीष्म और अभिमन्यु-जैसे वीर भी स्याहा हो जायेंगे ? हाय ! मेरे लिये इससे बढ़कर और क्या दुःख होगा। अवश्य ही पहले जन्मोंमें मुझे कोई पापकर्म हो गया है। इसीसे मुझे अपनी आँखों

अपने पुत्र, पौत्र और भाइयोंकी मृत्यु देखनी पड़ी है।' पुत्रशोककुला गान्धारोने इसी प्रकार दीनतापूर्वक विलाप करते हुए श्रीकृष्णसे कई बातें कहीं; इतनेहीमें उनकी दृष्टि अपने मृतक पुत्र दुर्योधनपर पड़ी।

दुर्योधनको मरा हुआ देखते ही शोकानुरा गान्धारी बट्ट हुए केलेके समान सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ी। होसा आनेपर जब उसने दुर्योधनको लूनमें लयपय हुए पृथ्वीपर पड़ा देखा तो वह उससे लिपटकर 'हा पुत्र ! हा पुत्र !' ऐसा कहकर रोने लगी। फिर उसे अपने आँसुओंसे सौंघती हुई श्रीकृष्णसे कहने लगी, 'वाण्य ! जब यह बन्धुओंका विध्वंस करनेवाला संग्राम ठन गया तो दुर्योधनने हाय जोड़कर मुझसे कहा था, 'माताजी ! मुझे आशीर्वाद दो कि इस युद्धमें मेरी विजय हो।' तब मैंने यही कहा था कि 'जय तो यहीं रहती है, जहाँ धर्म रहता है; किन्तु यदि तुम युद्ध करनेमें पबराये नहीं तो तुम्हें देवताओंके समान शस्त्रोंसे मरनेपर प्राप्त होनेवाले लोभ अवश्य मिलेंगे।' इस प्रकार मैंने तो पहले ही दुर्योधनसे ऐसी बात कह दी थी। इसलिये मुझे इसके लिये शोक नहीं है। मुझे तो महाराजके लिये चिन्ता है, जिनके सभी सम्बन्धी संग्राममें काम आ गये हैं। जरा कालके उलट-फेरको तो देखो ! जो दुर्योधन मूर्खभित्तव राजाओंके आगे-आगे चलता था, आज वही धूलिमें पड़ा हुआ है। आज वह वीरशव्यापर शत्रुके सामने मँहू किये पड़ा है, इसलिये इसे कोई साधारण मति नहीं मिली होगी। ओह ! जो ग्यारह अक्षीहिणी सेनाको लेकर युद्धके मैदानमें उतरा था, वह दुर्योधन अपने अन्त्यायसे ही आज मारा गया। यह अमागा बड़ा मूल्य था ! इसने अपने पिता और विदुरजी-जैसे युद्ध पुरुषोंका अपमान किया, इसीसे आज कालके गालमें चला गया। जिसने तेरह वर्षतक पृथ्वीका निष्पष्टक राज्य किया, यही मेरा पुत्र आज मरकर पृथ्वीपर सो रहा है। धीहृण ! तुम सुयुगकी वेदीके समान तेजस्विनी सधमणकी माताको तो देखो। आज उसके भी बाल बिलखे हुए हैं। मेरी यह पुत्रवधु बड़े उदार हृदयको है। पता नहीं इसको स्थिति कंती है। यह अपने पतिके लिये शोककुल है या पुत्रके लिये ? कभी यह पतिको ओर देखती है तो कभी पुत्रकी ओर देखने लगती है। किन्तु कुछ भी हो, यदि वेद और शास्त्र सचबे हैं तो दुर्योधनने अवश्य ही अपने बाहूबलसे प्रतापसे अधिनागी लोभ प्राप्त किये होंगे।

“माधव ! देखो, इधर मेरे सौ पुत्र पड़े हुए हैं। इन सबको भीमसेनने ही अपनी गदासे युद्धमें पछाड़ा है ! मुझे तो इसीसे अधिक दुःख होता है कि पुत्रोंके मारे जानेसे आज मेरी ये छोटी-छोटी पुत्रवधुएँ बाल खोले रणभूमिमें फिर रही हैं। हाय ! जो कभी पैरोंमें आभूषण पहने राजमहलकी स्निग्ध भूमिपर विचरती थीं, वे ही आज आपत्तिमें पड़कर इन खूनसे लयपथ कठोर रणाङ्गणमें घूम रही हैं। इस सुकुमारी राजकुमारी लक्ष्मणकी माताको देखकर तो मेरे मनको किसी प्रकार ढाढ़स नहीं बँधता। देखो, इन महिलाओंमेंसे कोई भाइयोंको, कोई पिताओंको और कोई पुत्रोंको पृथ्वीपर पड़े देखकर उनकी भुजाएँ पकड़-पकड़कर पछाड़ खा रही हैं। यही नहीं, इस दारुण संहारमें अपने सम्बन्धियोंके मारे जानेसे तुम्हें कई मध्यम और वृद्ध अवस्थाकी स्त्रियोंका भी रुदन सुनायी पड़ेगा।

“इधर देखो, यह दुःशासन पड़ा हुआ है। शत्रुसूदन महावीर भीमने इसे युद्धमें पछाड़कर इसके शरीरका खून पिया है। हाय ! द्रौपदीके कहनेसे और जुएके समय सहे हुए दुःखोंको याद करके भीमने मेरे इस पुत्रकी कैसी दुर्गति की है। कृष्ण ! मैंने तो दुर्योधनसे उसी समय कहा था कि ‘तू भीतकी फाँसीमें बँधे हुए शकुनिका साथ छोड़ दे। अपने इस कुबुद्धि नामाको तू पूरा कलहप्रिय समझ। तू इसे अभी त्यागकर पाण्डवोंके साथ संधि कर ले। मूर्ख ! क्या तू नहीं जानता भीमसेन कैसा असहनशील है, जो हाथीको उल्कासे जलानेके समान तू उसे अपने बाग्बाणोंसे बाँधा करता है?’ आज उसीका फल है कि भीमसेनका पछाड़ा हुआ दुःशासन अपनी लंबी-लंबी भुजाओंको फैलाये पृथ्वीपर सो रहा है। क्रोधी भीमने दुःशासनको युद्धमें मारकर इसका खून पिया, यह तो उसका बड़ा ही भीषण काम था।

“माधव ! देखो, यह मेरा पुत्र विकर्ण पड़ा हुआ है। इसको तो सभी बुद्धिमान् प्रशंसा करते थे। भीमने इसे भी सैकड़ों टुकड़े करके मार डाला है। कर्ण, नालीक और नाराच जातिके बाणोंसे यद्यपि इसके मर्मस्थान छिल-मिल हो गये हैं, तो भी इसकी कान्ति अभीतक बनी हुई है। यह शत्रुओंका संहार करनेवाला दुर्मुख सोया हुआ है। तमरशूर भीमने अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए इसे भी मार डाला है। श्रीकृष्ण ! इसके सामने तो संग्राममें कोई भी नहीं टिक सकता था। इसे शत्रुओंने कैसे मार डाला।

इधर देखो, यह धृतराष्ट्रनन्दन चित्रसेन मरा पड़ा है; यह तो धनुर्धरोंके लिये आदर्शरूप था।

“केशव ! इस अभिमन्युको तो बल और शौर्यमें अर्जुन तथा तुम्हारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा जाता था, इसने तो अकेले ही मेरे पुत्रके अमेघ व्यूहको तोड़ डाला था। सो देखो, यह भी अनेकोंको मारकर स्वयं मरा पड़ा है। किंतु मैं देखती हूँ कि मर जानेपर भी अतुलिततेजस्वी अभिमन्युका तेज फीका नहीं पड़ा है। देखो, यह विराटपुत्री अनिन्दिता उत्तरा अपने वीर और अल्पवयस्क पतिको देखकर कंसा शोक कर रही है। यह बार-बार अपने पतिके पास आकर अपने हाथसे उसके शरीरपर लगी हुई धूल झाड़ रही है। कृष्ण ! यह अभिमन्यु तो बल, वीर्य, तेज और रूपमें बहुत कुछ तुम्हारे ही समान है। किंतु हाय ! शत्रुओंका शिकार होकर आज यह भी पृथ्वीपर पड़ा हुआ है। देखो, इस समय उत्तरा उसके खूनसे सने हुए बालोंको हाथसे सुलभा रही है और गोदीमें उसका सिर रखकर मानो वह जीवित हो, इस प्रकार पूछ रही है कि ‘आप तो साक्षात् श्रीकृष्णके भानजे और गाण्डीवधारी अर्जुनके पुत्र हैं ! आपको संग्रामभूमिमें उन महारथियोंने कैसे मार डाला। क्रूरकर्मा कृपाचार्य, कर्ण, जयद्रथ तथा द्रोण और अश्वत्थामाको धिक्कार है, जिन्होंने मुझे विधवा बना दिया। युद्धमें अनेकों योद्धाओंने मिलकर आपको मार डाला, यह देखकर भी आपके पिता अबतक कैसे जी रहे हैं।

‘प्राणनाथ ! आपने शस्त्रोंसे जिन पुण्यलोकोंपर विजय पायी है, वहाँ में भी अपने धर्म तथा इन्द्रिय-निग्रहके बलपर शीघ्र आ रही हूँ; आप मेरी बाट देखिये ! सम्भवतः मृत्यु-काल आये बिना किसीका मरना बड़ा कठिन होता है, तभी तो मैं अमागिनी आपको मरा देखकर भी अबतक जी रही हूँ। वीर ! इस लोकमें तो आपके साथ मेरा छः महीनेका ही सहवास वदा था। सातवें महीनेमें ही आप परलोक सिंघार गये।’ उत्तराको इस प्रकार विलाप करते देखकर मत्स्यराजके कुलकी दूसरी स्त्रियाँ उसे खींचकर अन्यत्र ले जा रही हैं। किंतु राजा विराटको मरा हुआ देखकर वे स्वयं भी विलाप कर रही हैं। घृप, आयास और परिश्रमके कारण इन सभीके मुँह उतर गये हैं और शरीर झुलसे-से हो गये हैं। इधर ये रणभूमिके अग्रभागमें ही उत्तरा, काम्बोजकुमार, सुदक्षिण और लक्ष्मण आदि कई बच्चे मरे पड़े हैं। माधव ! जरा इनपर भी तो दृष्टि डालो !”

गान्धारीका अन्य मरे हुए वीरोंको देखकर विलाप करना और श्रीकृष्णको शाप देना

गान्धारीने फिर कहा—श्रीकृष्ण ! देखो, वह अनेकों महारथियोंको धराशायी करके खूनमें लयपय हुआ कर्ण रणाङ्गणमें पड़ा हुआ है। यह बड़ा ही असहन्शील, महान् क्रोधी, प्रचण्ड धनुर्धर और बड़ा बली था। किन्तु आज अर्जुनके हाथसे मारा जाकर यह पृथ्वीपर सोया हुआ है। मेरे महारथी पुत्र भी पाण्डवोंके भयसे इत्ते ही आगे करके युद्ध करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर इससे सदा ही धवराये रहते थे, इसकी ओरसे विन्तित रहनेके कारण तेरह वर्षतक उन्हें सुलसे नींद भी नहीं आयी। यह प्रलयकालिक अग्निके समान तेजस्वी और हिमालयके समान निरचल था और यही कुर्मोघनका प्रधान अवलम्ब था। किन्तु देखो, आज यह बाणद्वारा उखाड़े हुए वृक्षके समान पृथ्वीपर पड़ा है। इसकी पत्नी वृषसेनकी माता पृथ्वीपर पड़ी है और तरह-तरहसे विलाप करती बड़ा ही करुणप्रन्दन कर रही है। हाय ! बड़े खेदकी बात है ! महाबाहु कर्णको रणभूमिमें अचेत पड़ा देखकर सुपेणकी माता अत्यन्त आतुर होकर मूर्च्छित हो गयी है। देखो, कुछ होश होनेपर उठकर वह फिर पृथ्वीपर गिर गयी है और पुत्रके वधसे अत्यन्त आतुर होकर बड़ा ही विलाप कर रही है।

इधर देखो, यह भीमसेनका मारा हुआ अवन्तिनरेश पड़ा है। उसकी रानियाँ भी चारों ओरसे घेरकर उसकी सार-संभालमें लगी हुई हैं। श्रीकृष्ण ! महाराज प्रतीपके पुत्र बाह्नुक बड़े ही साहसी और धनुर्धर थे। वे भी भालेकी चोटसे मरकर रणभूमिमें सोये हुए हैं। मर जानेपर भी इनके मुलकी कान्ति फीकी नहीं पड़ी है। उधर, राजा जयद्रथ पड़ा हुआ है। इसे तो अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये ग्यारह अश्वीहिणी सेनाको पार करके मारा था। इसकी अनुरागिणी पत्नियाँ चारों ओरसे इसकी संभाल कर रही हैं। जनार्दन ! जिस समय यह वनमेंसे द्रौपदीको हारकर से गया था, पाण्डवयोग तो इसे तभी मार डालते; उस समय केवल दुःशलाकी ओर देखकर ही उन्होंने इसे छोड़ दिया था। हाय ! एक बार फिर उन्होंने दुःशलाका भान क्यों नहीं रक्खा ? देखो, मेरी बच्ची बुली हीकर कंसा विलाप कर रही है। कृष्ण ! बताओ, मेरे लिये इससे बढ़कर दुःख क्या होगा कि मेरी अल्पवयस्का पुत्री विधवा हो गयी और बहुओंके पति मारे गये। हाय ! तनिक मेरी दुःशलाकी ओर तो देखो। पत्तिका सिर न मिलनेके कारण यह शोक और भयसे रहित-सी होकर उसे इधर-उधर दूँदती फिर रही है।

इधर ये नकुलके मामा राजा शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्मको जाननेवाले स्वयं धर्मराजने ही संप्राममें मारा था। इनकी तुम्हारे साथ सदासे स्पर्धा रहती थी। युद्धस्थलमें कर्णका सारम्य करते समय ये पाण्डवोंको विजय दिलानेके लिये उसका तेज क्षीण करते रहे थे। देखो, इन्हें चारों ओरसे इनकी रानियोंने घेर रक्खा है। उधर वे पर्वतीय राजा भगदत्त हाथमें हाथीका अंकुरा लिये पृथ्वीपर मरे पड़े हैं। इनके साथ अर्जुनका बड़ा ही प्रचण्ड, रोमाञ्चकारी और भीषण युद्ध हुआ था। एक बार तो इनके युद्धकीशालकी देखकर अर्जुन भी दंग रह गया था, किन्तु अन्तमें वे उसीके हाथसे मारे गये। देखो, जिनके समान बल और पराक्रममें संसारमरमें कोई नहीं था, वे ही भीषण कर्म करनेवाले भीष्मजी इधर शरशाय्यापर शयन कर रहे हैं। केशव ! इस प्रतापी नर-सूर्यने शत्रुओंको अपने शस्त्रोंके तापसे भुससा डाला था। हाय ! आज यह अस्त होना चाहता है। आज धीरोचित शरशाय्यापर पड़े हुए इन अखण्ड ब्रह्मचारी भीष्मजीके दर्शन तो करो। ये आजतक अपने व्रतसे नहीं डिगे। भगवान् स्वामिकारिकेय जैसे सरफण्डोंके समूहपर सुरामित हुए थे उसी प्रकार ये कर्ण, नासीक और नाराच जातिके बाणोंकी सेज बिछाकर सोये हुए हैं। अर्जुनने इनके सिरके नीचे तीन बाण मारकर इन्हें बिना ही रुँडका तकिया दिया है। अपने पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिये वे अखण्ड ब्रह्मचारी रहे, जिससे इन्हें बड़ी भारी कीर्ति मिली। युद्धमें इनकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं था। ये बड़े ही धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं तथा मनुष्य होनेपर भी सत्त्वज्ञानके प्रभावसे देवताओंके समान प्राण धारण किये हुए हैं। आज जब भीष्मजी भी बाणोंके लय वनकर रणक्षेत्रमें पड़े हुए हैं तो भुम्के यही निश्चय होता है कि वास्तवमें न कोई युद्धकुशल है, न पराक्रमी है और न विद्वान् है। विघाता जिते जीवनमें सफलता वे देता है, उसीको लोग श्रेष्ठ कहने लगते हैं। माधव ! जब ये देवतुल्य भीष्मजी स्वर्गको सिंघार जायेंगे तो कुशकुलके लोग धर्मके विषयमें अपना संदेह किससे दूछेंगे ?

इधर देखो, ये कौरवोंके माननीय आचार्य द्रोण पड़े हुए हैं। चार प्रकारके अस्त्रोंका ज्ञान जंसा इन्द्रको है, बंसा या तो परशुरामजीको है या आचार्य द्रोणको था। जिनकी कृपासे अर्जुनने अनेकों दुष्कर कार्य किये, वे ही द्रोण आज मरे पड़े हैं; इनकी शस्त्रविद्या भी इन्हें नहीं बचा सकी !

इनके जिन बन्दनीय चरणोंका संकड़ों शिष्य पूजन किया करते थे, देखो ! आज उन्हींको गीदड़ खींच रहे हैं । इनके मरणकी व्यथासे कृपा अचेत-सी हो गयी है और अत्यन्त दीन-सी होकर इनके पास बैठी है । देखो तो सही, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह नीचा मुख किये फूट-फूटकर रो रही है । इनके शिष्योंने चित्तमें अग्नि स्थापित करके उसे सब ओरसे प्रज्वलित कर दिया है तथा उत्तपर आचार्यके शवको रखकर वे सामगान करते हुए रो रहे हैं । देखो, अब वे कृपाको आगे रखकर चिताकी प्रदक्षिणा करके गङ्गाजीकी ओर जा रहे हैं ।


माधव ! पास ही पड़े हुए इस भूरिश्रवाकी ओर तो देखो । इसकी पत्नियाँ मरे हुए अपने पतिको घेरे लड़ी हैं और तरह-तरहसे शोक कर रही हैं । शोकके वेगने इन्हें बहुत ही कृश कर दिया है और ये आर्तस्वरसे विलाप करती बार-बार पछाड़ खाकर पृथ्वीपर गिर जाती हैं । इनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर चित्तमें बड़ा ही दुःख होता है । देखो, ये कह रही हैं—'सात्यकिका यह काम बड़ा ही अधर्मपूर्ण और अकीर्तिकर हुआ है ।' एक स्त्रीने पतिकी भुजाको गोदमें रख लिया है । वह दीनतापूर्वक विलाप करती हुई कह रही है—'यह वह हाथ है जिसने अनेकों शूर-वीरोंका संहार किया था, अपने मित्रोंको अमयदान दिया था और सहलों गाँएँ दान की थीं । जिस समय दूसरेके साथ संग्राम करनेमें लगे होनेसे तुम असावधान थे, उस समय श्रीकृष्णके समीप ही अर्जुनने इसे काट डाला था ।' इस प्रकार अर्जुनकी निन्दा करके वह सुन्दरी चुप हो गयी है । उसके साथ ही उसकी दूसरी सौतेली भी शोकमें डूबी हुई है ।

यह सहदेवका मारा हुआ गान्धारराज महाबली शकुनि है । आज यह भी लड़ाईके मैदानमें सोया हुआ है । यह बड़ा मायावी था । इसको संकड़ों-हजारों प्रकारके रूप बनाने आते थे । किंतु आज पाण्डवोंके प्रतापसे इसकी सारी माया भस्म हो गयी है । इस कपटीने द्यूतसभामें अपनी मायाके प्रभावसे ही युधिष्ठिरका विशाल साम्राज्य जीत लिया था, किंतु आज यह अपना जीवन भी हार बँटा ! कृष्ण ! देखो, यह दुर्घर्ष वीर काम्बोजनरेश पड़ा है । यह काम्बोजदेशके गलोचोंपर सोनेयोग्य था, किंतु आज मौतके मुखमें पड़कर धूलिकी शय्यापर सो रहा है ! देखो, वह कलिगराज पड़ा है । उसके पास ही मगधदेशका राजा जयत्सेन है । उसकी स्त्रियाँ उसे चारों ओरसे घेरकर अत्यन्त विह्वल होकर रो रही हैं । इधर कौसलनरेश राजकुमार बृहदलको भी उसकी स्त्रियोंने घेर रक्खा है और वे फूट-फूटकर रो रही हैं । देखो, ये घृष्टघुम्नके वीर पुत्र पड़े हैं और उधर आचार्यहीके गिराये

हुए पाञ्चालराज द्रुपद सोये हुए हैं । ये बूढ़े पाञ्चालराजकी दुःखिनी स्त्रियाँ और वहुएँ उनका अग्निसंस्कार कर बायाँ ओरसे प्रदक्षिणा करके जा रही हैं ।

देखो, उधर द्रोणके मारे हुए चेदिराज घृष्टकेतुको उसकी स्त्रियाँ ले जा रही हैं । यह बड़ा ही शूरवीर और महारथी था । हजारों शत्रुओंका संहार करनेके बाद ही यह मारा गया है । इसकी सुन्दरी भायाँएँ इसे गोदमें उठाकर विलाप कर रही हैं । उधर द्रोणहीका बाँधा हुआ इसका पुत्र पड़ा है । मेरे-पुत्र दुर्योधनके लड़के वीरवर लक्ष्मणने भी इसी तरह अपने पिताका अनुगमन किया है । देखो, ये अवन्तिराज विन्द और अनुविन्द मरे पड़े हैं । ये इस समय भी अपने हाथोंमें धनुष-बाण और खड्ग पकड़े हुए हैं । कृष्ण ! पाँचों पाण्डव और तुम तो अवध्य हो । इसीसे द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृप, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण और कृतवर्मा-जैसे वीरोंकी मारसे बच गये हो ।

माधव ! निश्चय ही विधाताके लिये कोई काम कर डालना विशेष कठिन नहीं है । देखो न, क्षत्रियोंने ही इन शूरवीर क्षत्रियोंका वात-की-वातमें संहार कर डाला । मेरे पुत्रोंका नाश तो उसी दिन ही चुका था, जब तुम अपने संधिके प्रयत्नमें असफल होकर उपप्लव्यकी ओर लौटे थे । महामति भीष्म और विदुरजीने मुझसे उसी समय कह दिया था कि अब अपने पुत्रोंकी मोह-ममता छोड़ दो । उनकी वह दृष्टि



मिया कंसे हो सकती थी । आज इसीसे इतनी जल्दी मेरे पुत्र मस्मीभूत हो गये ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! श्रीकृष्णसे इतना कहकर गान्धारी शोकसे अचेत होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी । दुःखकी अधिकतासे उसकी विचारशक्ति नष्ट हो गयी और उसका धर्म टूट गया । जब उसे चैत हुआ तो पुत्रशोककी प्रबलतासे उसके अङ्ग-अङ्ग क्रोधसे भर गये और श्रीकृष्णपर दौघदृष्टि करके वह कहने लगी, 'कृष्ण ! पाण्डव और कौरव आपसकी फूटके कारण ही नष्ट हुए हैं । किंतु तुमने समय होते हुए भी इनकी उपेक्षा क्यों कर दी । तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी । तुम दोनोंहीको दबा सकते थे और अपने वाक्कीशलसे उन्हें समझ भी सकते थे । किंतु तुमने अपनी इच्छासे ही इस कौरवोंके संहारकी उपेक्षा कर दी थी । सो अब तुम उसका फल भोगो । मैंने पतिकी सेवा करके जो तप संचय किया है, उसीके प्रभावसे मैं तुम्हें शाप देती हूँ—तुमने कौरव और पाण्डव दोनों माइयोंके आपसमें प्रहार करते समय उनको उपेक्षा कर दी

थी । इसलिये तुम भी अपने बन्धु-बान्धवोंका वध करोगे । आजसे छत्तीसवें वर्ष तुम भी बन्धु-बान्धव, मन्त्रों और पुत्रोंका नाश हो जानेपर एक साधारण कारणसे अनाथकी तरह मारे जाओगे । आज जैसे ये भरतवंशकी स्त्रियाँ विलाप कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुम्बकी स्त्रियाँ भी अपने बन्धु-बान्धवोंके मारे जानेपर सिर पकाड़कर रोवेंगी ।'

गान्धारीके ये कठोर वचन सुनकर महामना श्रीकृष्णने कुछ मुसकराते हुए कहा, 'मैं तो जानता था कि यह बात इसी प्रकार होनी है । तुमने जो कुछ होना था, उसीके लिये शाप दिया है । इसमें संदेह नहीं, मृगिणवर्तियोंका नाश देवी कोपते ही होगा । इनका नाश करनेमें भी मेरे सिवा और कोई समय नहीं है । मनुष्य तो बया, देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर सकते । इसलिये ये यदुवंशी आपसके कलहसे ही नष्ट होंगे ।'

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर पाण्डवोंको बड़ा भय हुआ । वे अत्यन्त व्याकुल हो गये और उन्हें अपने जीवनकी भी आशा नहीं रही ।

राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा मेरे हुए योद्धाओंका दाहकर्म

श्रीकृष्ण कहने लगे—गान्धारी ! उठो, उठो, मनमें शोक मत करो । इन कौरवोंका संहार तो तुम्हारे ही अपराधसे हुआ है । तुम अपने बुद्ध पुत्रको भी बड़ा साधु समझती थी । जो बड़ा ही निष्ठुर, व्यर्थ बंधु बांधनेवाला और बड़े-बूढ़ोंको आत्माका भी उल्लङ्घन करनेवाला था, उसी दुर्बोधनको तुमने सिरपर चढ़ा रक्खा था । फिर अपने किये हुए अपराधको तुम मेरे माये क्यों मढ़ती हो ?

वैशम्पायनजी कहते हैं—श्रीकृष्णके ये अप्रिय वचन सुनकर गान्धारी चुप रह गयी । फिर धर्मको जाननेवाले राजर्षि धृतराष्ट्रने अपने अज्ञानजनित मोहको दबाकर धर्मराज युधिष्ठिरसे पूछा, 'युधिष्ठिर ! इस युद्धमें जो सेना मारी गयी है, उसके परिमाणका तुम्हें पता हो तो हमें बताओ ।'

युधिष्ठिरने कहा—महाराज ! इस युद्धमें एक अरब, छालठ करोड़, बीस हजार और मारे गये हैं । इनके सिवा चौदह हजार योद्धा अज्ञात हैं और दस हजार एक सौ पैंसठ बीरोंका और भी पता नहीं है ।

धृतराष्ट्रने पूछा—महाबाहो ! मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूँ । इसलिये यह तो बताओ, उन सबकी क्या गति हुई है ?

युधिष्ठिर बोले—महाराज ! जिन सच्चे धीरोंने इस युद्धान्तमें अपने शरीरोंको हर्षपूर्वक होमा है, वे तो इन्द्रके

समान ही पुण्यलोकोंको प्राप्त हुए हैं ; जो यह सोचकर कि 'एक दिन मरना तो है ही, इसलिये लड़कर ही मर जाओ' हर्षहीन हृदयसे लड़ते-लड़ते मारे गये हैं, वे गन्धर्वाके साथ जा मिले हैं और जो संग्रामभूमिमें रहते हुए भी प्राणोंकी रक्षा मांगते या युद्धसे भागते हुए शस्त्रोंद्वारा मारे गये हैं, वे यक्षोंके लोकमें गये हैं । किंतु जिन महापुरुषोंको शत्रुओंने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करनेका कोई साधन भी नहीं रहा था, जो शस्त्रहीन हो गये थे और बहुत लज्जित होनेपर भी जिन्होंने शत्रुओंके सामने पीठ नहीं दिखायी—इस प्रकार क्षात्रधर्मका पालन करते हुए जो तोलें शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न हो गये थे, वे तो ब्रह्मलोकोंको ही गये हैं—इस विषयमें मुझे तर्क भी संदेह नहीं है । इनके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस युद्धभूमिके भीतर मार दिये गये हैं, वे उत्तरकुण्ड देशमें जन्म लेंगे ।

धृतराष्ट्रने पूछा—बेटा ! तुम्हें ऐसा कौन-सा ज्ञानबल प्राप्त है, जिससे इन बातोंको तुम सिद्धोंके समान देख रहे हो ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे बताओ ।

युधिष्ठिर बोले—पिछले दिनोंमें आपकी आत्मासे वनमें विचरते समय जब वे तीर्थयात्रा कर रहा था, उस समय मुझे देवीय लोमशजीके दर्शन हुए थे । उन्होंने मुझे

अनुस्मृति प्राप्त हुई थी और उससे भी पहले ज्ञानयोगके प्रभावसे मुझे दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी थी।

धृतराष्ट्रने कहा—युधिष्ठिर ! यहाँ जो अनेकों अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या उनके शरीरोंका तुम विधिवत् दाह करा दोगे ? इनमें अनेकों ऐसे होंगे जो न तो अग्निहोत्री रहे होंगे और न उनका संस्कार करनेवाला ही कोई होगा। भैया ! यहाँ तो बहुतोंके अन्त्येष्टिकर्म करने हैं, हम किस-किसका करें ?


राजा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने कौरवोंके पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्यको तथा सञ्जय, विदुर, युयुस्तु, इन्द्रसेन आदि सेवक और सब सारथियोंको आज्ञा दी कि 'आपलोग विधिपूर्वक इन सभीके प्रेतकर्म कराइये, जिससे कोई भी शरीर अनाथकी तरह नष्ट न हो।' धर्मराजकी आज्ञा पाते ही ये सब लोग चन्दन, अगर, काण्ड, घी, तेल, मुग्धित द्रव्य और रेशमी वस्त्र आदि सब सामग्री जुटानेमें लग गये। उन्होंने टूटे-फूटे रथ और तरह-तरहके शस्त्रोंके ढेर लगा दिये। फिर बड़ी तत्परतासे चिताएँ तैयार कर उनपर मुख्य-मुख्य राजाओंके शव रखकर

शास्त्रोक्त विधिसे उनका दाहकर्म कराया। राजा दुर्योधन, उसके निन्यावे भाई, राजा शल्य, शल, भूरिथवा, जयद्रथ, अभिमन्यु, दुःशासनके पुत्र, लक्ष्मण, धृष्टकेतु, बृहन्त, तोमदत्त, सैकड़ों सुञ्जयवीर, राजा क्षेमधन्वा, विराट, द्रुपद, शिशुपदी, धृष्टद्युम्न, युधामन्यु, उत्तमीजा, कोसलराज, द्रौपदीके पुत्र, शकुनि, अचल, वृषक, भगदत्त, कर्ण, कर्णके पुत्र, केकयराज, त्रिगर्तराज, घटोत्कच, अलम्बुष और जलसन्ध— इन सबका तथा और भी हजारों राजाओंका उन्होंने घृतकी धारोओंसे प्रज्वलित हुई अग्निमें दाह कराया। किन्हीं-किन्हींके लिये श्राद्धकर्म भी कराये गये, किन्हींके लिये सामगान कराया गया और किन्हींके लिये उनके सम्बन्धियोंको बहुत शोक भी हुआ। उस रात्रिमें सामगानकी ध्वनि और स्त्रियोंके रुदनसे सभी जीवोंको बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद वहाँ अनेकों देशोंसे आये हुए जो अनाथ लोग मारे गये थे, उन सबकी हजारों ढेरियाँ कराकर उन्हें विदुरजीने घीमें भीगी हुई लकड़ियोंसे जलवा दिया। इस प्रकार सब राजाओंका दाहकर्म करके कुरुराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्रको लेकर गङ्गाजीकी ओर चले।

सब स्त्रियोंका अपने सम्बन्धियोंको जलाञ्जलि देना तथा कुन्तीके मुखसे कर्णके जन्मका रहस्य खुलनेपर भाइयोंके सहित राजा युधिष्ठिरका शोकाकुल होना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! सब लोग साधुजनसेवित पुण्यतोया भागीरथीके तटपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने आमूषण और दुपट्टे उतार दिये। फिर कुरुकुलकी स्त्रियोंने अत्यन्त दुःखित होकर रोते-रोते अपने पुत्र और पत्नियोंको जलाञ्जलि दी तथा धर्मविधिको जाननेवाले पुरुषोंने भी अपने सुहृदोंको जलदान किया। जिस समय वे वीरपत्नियाँ जलदान कर रही थीं, शोकाकुला कुन्तीने रोते-रोते यकायक धीमें स्वरमें कहा, 'पुत्रो ! जिसे अर्जुनने संग्राममें परास्त किया है, जो वीरोंके सभी लक्षणोंसे सम्पन्न था, जिसे तुम राधाकी कोखसे उत्पन्न हुआ सूतपुत्र मानते हो, जिसने दुर्योधनकी सारी सेनाका नियन्त्रण किया था, पराक्रममें जिसके समान पृथ्वीमें कोई भी राजा नहीं था और जो दिव्य कवच एवं कुण्डल धारण किये था, वह सूर्यके समान तेजस्वी कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। वह भगवान् सूर्यके द्वारा मेरे उदरसे उत्पन्न हुआ था। उसके लिये तुम जलाञ्जलि दो।'

माताके ये अप्रिय वचन सुनकर सभी पाण्डव कर्णके लिये शोकाकुल होकर बड़े उदास हो गये। फिर राजा



युधिष्ठिरने संबी-संबी साँसें लेते हुए मातासे पूछा, 'माताजी ! कर्ण तो साक्षात् समुद्रके समान गम्भीर थे, उनकी बाणवर्षाके सामने अर्जुनके सिवा और कोई धीर नहीं टिक सकता था, उन्होंने किस प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भसे जन्म लिया था ? जैसे कोई आगकी कपड़ेसे ढाँप ले, उसी प्रकार आपने इस बातको अबतक कैसे छिपा रखा था ? हम जैसे अर्जुनके बाहुबलका भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार कौरवोंको तो उन्हींके बलका भरोसा था। ओह ! इस रहस्यको छिपाकर तो आपने हमारा सत्यानास ही कर दिया। आज कर्णको मृत्युसे हम सभी भाइयोंको बड़ा दुःख हो रहा है। अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र, पाञ्चालवीर और कौरवोंके मारे जानेसे मुझे जितना दुःख है, उससे सीगुना कर्णको मृत्युसे हो रहा है। अब तो मुझे कर्णका ही शोक है, उसमें मैं ऐसे जल रहा हूँ मानो कितने आग लगा दी हो। यदि हमें यह बात मासूम होती

तो हमारे लिये पुष्पोद्गी तो क्या, स्वर्गको भी कोई बस्तु अप्राप्य नहीं रहती। फिर तो यह कुदकृतका उच्छेद करने-वाला भीषण संहार भी न होता।'

इस प्रकार तरह-तरहसे अत्यन्त विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिरने रोते-रोते कर्णको जलाञ्जलि दी। उस समय वहाँ सहसा सभी स्त्रियाँ रो पड़ीं। इसके बाद कुदराज युधिष्ठिरने छातूप्रेमयश कर्णकी सय स्त्रियोंको वहाँ बुलवाया और उनको साथ लेकर शास्त्रविधिते कर्णका प्रतिकर्म किया। फिर वे कहने लगे, 'मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने न जाननेके कारण ही अपने बड़े भाईका यथ करार दिया। अतः उनकी पत्नियोंके हृदयमें मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष हो तो वह दूर हो जाना चाहिये।' ऐसा कहकर वे विकृत चित्तसे गङ्गाजीसे बाहर निकले और अपने सब भाइयोंके सहित तटपर आये।



स्त्रीपथ समाप्त

१११

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

संक्षिप्त महाभारत

शान्तिपर्व

शोकाकुल युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए देवर्षि नारदका उन्हें कर्णका पूर्वचरित्र सुनाना

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—अपने समस्त सुहृदोंको जलाञ्जलि देनेके पश्चात् पाण्डव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भरतवंशकी सम्पूर्ण स्त्रियाँ आत्मशुद्धिके लिये एक मासतक नगरसे बाहर गङ्गातटपर टिकी रहीं । उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके पास बहुत-से सिद्ध, महात्मा तथा ब्रह्मर्षि पधारे । उनमें द्रौपयन व्यास, नारद, देवल, देवस्यान, कण्व तथा इन सबके शिष्य भी थे । इनके अतिरिक्त भी अनेकों वेदवेत्ता ब्राह्मण, गृहस्थ एवं स्नातक पधारे थे । राजा युधिष्ठिरने उन सब महर्षियोंका विधिवत् पूजन किया । इसके बाद वे उनके दिये हुए बहुमूल्य आसनोंपर विराजमान हुए । समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि-महर्षि गङ्गाके पावन तटपर शोकसे व्याकुल हुए महाराज युधिष्ठिरको धैर्य बंधाने लगे ।

सबसे पहले नारदजीने व्यास आदि मुनियोंसे वार्तालाप करके राजा युधिष्ठिरके प्रति इस प्रकार कहा—‘राजन् ! आपने अपने बाहुबल तथा भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर धर्मपूर्वक विजय पायी है । सौभाग्यकी बात है कि आप इस भयंकर संग्रामसे जीते-जागते बच गये । अब क्षत्रियधर्मके पालनमें तत्पर रहते हुए आप प्रसन्न तो हैं न ? इस राज्यलक्ष्मीको पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता ?’



युधिष्ठिरने कहा—मुनिवर ! भगवान् श्रीकृष्णके आश्रय, ब्राह्मणोंकी कृपा तथा भीम और अर्जुनके बलसे मैंने सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय तो पा ली; परंतु मेरे हृदयमें प्रतिदिन यह एक महान् दुःख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने कुलका संहार करा दिया । सुभद्राकुमार अभिमन्यु और द्रौपदीके प्यारे पुत्रोंको मरवाकर अब यह विजय भी पराजय-सी ही जान पड़ती है । द्रौपदी सदा हमलोगोंका प्रिय तथा हित करनेमें लगी रहती है, इस बेचारीके पुत्र और भाई सब मारे गये; जब इसकी ओर देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है । नारदजी ! यह सब दुःख तो या ही, एक दूसरी बात और बता रहा हूँ; मेरी माता कुन्तीने कर्णके जन्मका

रहस्य छिपाकर मुझे और भी दुःखमें डाल दिया है । जिनमें दस हजार हाथियोंका बल था, संसारमें जिनकी समानता करनेवाला कोई भी महारथी नहीं था, जो बुद्धिमान्, दाता, दयानु और श्रतका पालन करनेवाले थे, जिनमे शौर्यका पूरा अभिमान था, जो पुताँसे अस्त्र चलानेवाले तथा विचित्र प्रकारमें युद्ध करनेवाले थे, जिनका पराक्रम अद्भुत था, उन विद्वान् कर्णको माता कुन्तीने ही गुप्त रूपसे जन्म दिया था; वे हमलोगोंके भाई थे । जलदान करते समय कुन्तीने यह रहस्य बताया कि वे भगवान् सूर्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे । पूर्वकालकी बात है जब कुन्तीके गर्भमें सर्वगुणसम्पन्न कर्णका प्रादुर्भाव हुआ, उस समय माताने उन्हें पेटोमें रखकर गङ्गाकी धारामें बहा दिया था । जिन्हें सारा संसार राधाका पुत्र समझता था, वे कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र और हमलोगोंके सहोदर भाई थे । मैंने अतजानमें राज्यके शोभसे अपने भाईको ही मरवा डाला—यह स्मरण करके मेरे बदनमें आग-सी लग जाती है । हम पाँचोंमेंसे कोई भी उन्हें अपने भाईके रूपमें नहीं जानता था, किंतु वे हमलोगोंको जानते थे । मुना है, मेरी माता कुन्ती हम लोगोंसे संधि करानेके लिये उनके पास गयी थी; इन्होंने बताया 'बेटा ! तुम राधाके नहीं, मेरे पुत्र हो ।' किंतु कर्णने इनकी अमिताया नहीं पूरी की—वे संधिके लिये नहीं सहमत हुए । उन्होंने यही उत्तर दिया— 'माँ ! मैं राजा दुष्योधनको छोड़नेमें असमर्थ हूँ । यदि तुम्हारी बात मानकर युधिष्ठिरसे संधि कर लेता हूँ तो मोच, नृशंस और कृतघ्न समझा जाऊँगा । लोग यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुनसे डर गया । इसलिये समरमें श्रीकृष्णसहित अर्जुनको जीत लेनेके परचात् मैं धर्मनन्दन युधिष्ठिरसे संधि करूँगा ।'

यह सुनकर कुन्तीने कहा, 'अच्छी बात है; तुम अर्जुनसे युद्ध करो, किंतु शीघ्र चार भाइयोंको अभय-दान दे दो ।' इतना कहकर माता काँपने लगीं, इनकी यह अवस्था देख बुद्धिमान् कर्णने कहा—'देवि ! तुम्हारे चार पुत्र मेरे चंगुलमें फँस जायेंगे, तो भी उन्हें जानसे नहीं माँहूँगा । यदि मैं मारा गया तो अर्जुन रहेंगे, अर्जुन मरे तो मैं रहूँगा; -इस प्रकार 'तुम्हारे पाँच पुत्र तो हर हालतमें जीवित रहेंगे ।' कुन्ती बोलीं—'बेटा ! अपने भाइयोंका कल्याण करना ।' फिर वे घर चली आयीं । इस रहस्यको न तो कुन्तीने प्रकट किया, न कर्णने; इसीलिये भाईके हाथसे सहोदर भाईका वध हुआ—अर्जुनने वीरवर कर्णको मार डाला । इससे मेरे हृदयको बड़ी धवला हो रही है । कर्ण और अर्जुनको सहायता पाकर तो मैं इन्द्रको भी जीत सकता था । धृतराष्ट्रके बुरात्मा पुत्र जब सभामें शीघ्रदीकी बलसे दे रहे थे और कर्णकी

कठोर बातें सुनायी देती थीं, उस समय मुझे सहसा रोष चढ़ आता था, किंतु कर्णके धरणाँपर दृष्टि जाते ही शान्त हो जाता था । मुझे कर्णके दोनों पैर माता कुन्तीके धरणाँजंत ही मालूम होते थे । किंतु बहुत सोचनेपर भी मैं इसका कारण नहीं जान पाता था । भगवन् ! कर्णके पहिलेकी पृथ्वी क्यों निगल गयी ? मेरे भाईको ऐसा शपथ क्यों प्राप्त हुआ ? यह मुझे बताइये; मैं आपसे वे सभी बातें ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ; क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, भूत-भविष्यको सारी बातें जानते हैं ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! युधिष्ठिरके इस प्रकार प्रश्नपर नारद मुनि कर्णको जिस तरह शपथ प्राप्त हुआ था, वह सारी कथा बहने लगे—'भारत ! यह देवताओंकी गुप्त बात है, किंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ । एक समय सब देवताओंने विचार किया कि कौन-सा ऐसा उपाय हो, जिससे भूमण्डलका सारा क्षत्रिय-समान शस्त्रोंके आघातसे पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे । यह सोचकर उन्होंने सूर्यद्वारा कुमारी कुन्तीके गर्भसे एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया । यही कर्ण हुआ । उसने आचार्य ऋषिसे धनुर्वेदका अभ्यास किया । वह बचपनसे ही भीमसेनका बल, अर्जुनकी अस्त्र चलानेमें पुर्ता, आपकी बुद्धि, नकुल-सहदेवकी विनय तथा श्रीकृष्णके साथ अर्जुनकी मित्रता देखकर जला करता था । आपके ऊपर प्रजाका अनुराग जानकर यह चिन्तासे बंध होता रहता था । इसीलिये उसने बाल्यकालमें ही राजा दुष्योधनसे मित्रता कर ली ।

"धनुस्त्रयका धनुर्विद्यामें अधिक पराक्रम देखकर एक दिन कर्णने श्रोणाचार्यसे एकान्तमें कहा—'गुरुदेव ! मैं ब्रह्मास्त्रको छोड़ने और लोटाँनेकी विद्या जानना चाहता हूँ ।' कर्णकी अर्जुनके साथ जो लाग-डॉट थी, उसे श्रोणाचार्य जानते थे; उसकी दुष्टतासे भी वे अपरिचित नहीं थे । इसीलिये उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा—'कर्ण ! शास्त्रोक्त विधिसे अनुसार ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र सीखनेका अधिकारी है, दूसरा नहीं ।' उनके ऐसा कहनेपर कर्णने 'बहुत अच्छा' कहकर उनका सम्मान किया । फिर उनकी आज्ञा लेकर वह सहसा यहाँसे चल दिया । जाते-जाते महेश्वरपर्वतपर पहुँचा और परशुरामजीके निकट जा भृगुवंशी ब्राह्मणके रूपमें अपना परिचय दे उसने गुरुबुद्धिसे उन्हें तिर भूकारक प्रणाम किया और शिष्यभावसे वह उनकी शरणमें गया । परशुरामजीने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्यके रूपमें स्वीकार किया और कहा 'वत्स ! तुम्हारा स्वागत है, तुम प्रसन्नतापूर्वक यहाँ रहो ।'

“कर्णं महेन्द्रपर्वतपर रहकर विधिपूर्वक ब्रह्मास्त्रका अभ्यास करने लगा। उस समय वहाँ उसे गन्धर्व, राक्षस, यक्ष तथा देवताओंसे मिलनेका अवसर प्राप्त होता रहता था। इसलिये उन सबके साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया। एक दिनकी बात है, वह आश्रमके पास ही समुद्रके किनारे-किनारे टहल रहा था। अकेला था और हाथोंमें तलवार तथा धनुष लिये हुए था। उसी समय एक वेदपाठीकी गौ उधर आ निकली। मुनि अग्निहोत्रमें लगे हुए थे। कर्णने अनजानमें उसे कोई हिंस्र जीव समझकर मार डाला। जब मालूम हुआ तो उसने अपने अज्ञानबश किये हुए अपराधको ब्राह्मणसे जाकर कह सुनाया। ब्राह्मणदेवताको प्रसन्न करनेके लिये कर्ण बोला—‘भगवन् ! मैंने अनजानमें आपकी यह गाय मार डाली है; इसलिये आप मुझपर कृपा करके यह अपराध क्षमा कर दीजिये।’

“ब्राह्मण विगड़ उठा और उसको डाँटता हुआ बोला—
‘बुराचारि ! तू मार डालने योग्य है; ले, इस पापका फल



भोग। अन्त समयमें पृथ्वी तेरे रथके पहियेको निगल जायगी; उस समय, जब तू धरराया होगा उसी अवस्थामें, शत्रु तेरा भस्तक फाट डालेगा।’ यह शाप सुनकर कर्णने बहुत-सी गौएँ, धन तथा रत्न दे ब्राह्मणको प्रसन्न करनेकी चेष्टा की। तब उसने फिर कहा—‘सारा संसार मिलकर

भी मेरी बात भूठी नहीं कर सकती।’ उसके ऐसा कहनेपर कर्णको बड़ा भय हुआ। दीनतासे उसका मुँह नीचेकी ओर झुका गया। फिर मन-ही-मन इस दुर्घटनाको याद करता हुआ वह परशुरामजीके पास लौट आया।

“कर्णकी भुजाओंका बल, गुरुके प्रति उसका प्रेम, इन्द्रियसंयम तथा सेवाभाव देखकर परशुरामजी उसपर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रयोग और उपसंहारसहित सम्पूर्ण ब्रह्मास्त्र-विद्या उसे विधिपूर्वक सिखा दी। तदनन्तर, एक दिन परशुरामजी कर्णके साथ अपने आश्रमके पास ही घूम रहे थे। उपवास करनेके कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, अतः थकावट आ जानेसे उन्हें नौद सताने लगी। कर्णके ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था, इसलिये वे उसीकी गोदमें सिर रखकर सो गये। इतनेमें जार, मज्जा, मांस और रक्तका आहार करनेवाला एक भयंकर कीड़ा, जो घड़ा तीखा डंक मारता था, कर्णके पास आया और उसकी जाँघपर चढ़ गया। जाँघमें घाव करके वह उसका रक्तपान करने लगा। इस प्रकार कीड़ेके फाटनेसे उसे च्यथा होती रही; किंतु उसने धैर्यपूर्वक उसे सहन किया और गुरुके जाग उठनेके डरसे कीड़ेको दूर नहीं हटाया, बल्कि उसकी ओरसे उपेक्षा कर दी।

“कर्णके देहसे निकले हुए रक्तकी धारासे जब परशुराम-जीका शरीर भीगने लगा तो वे सहसा जाग उठे और शंकित होकर बोले—‘अरे ! तू तो अशुद्ध हो गया। यह क्या कर रहा है ? भय छोड़कर ठीक-ठीक बत।’ तब कर्णने उन्हें कीड़ेके फाटनेकी बात बत। ज्यों ही उन्होंने उस कीटकी ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राणपलेह उड़ गये; यह एक अद्भुत घटना हुई। इतनेमें एक भयंकर राक्षस आकाशमें खड़ा दिखायी दिया। यह दोनों हाथ जोड़कर परशुरामजीसे बोला—‘मुनिवर ! आपने मुझे इस नरकके फाँटसे छुटकारा दिला दिया, यह मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब जहाँसे आया था, वहीं जा रहा हूँ।’ परशुरामजीने पूछा ‘अरे ! तू कौन है और कैसे इस नरकमें पड़ा था ?’ उसने उत्तर दिया—‘तात ! सत्ययुगकी बात है, मैं दंश नामक अनुर था। एक दिन मैंने भृगुमुनिकी प्राणप्यारी पत्नीका बलपूर्वक अपहरण किया; इससे क्रोधमें आकर महर्षिने यह शाप दिया—‘पापी ! तू कीड़ा होकर नरकमें पड़ेगा।’ तब मैंने उनसे प्रार्थना की ‘ब्रह्मन् ! इस शापका अन्त भी होना चाहिये।’ उन्होंने कहा ‘भेरे दंशमें उत्पन्न हुए परशुरामको दृष्टि पड़नेसे इस शापका अन्त होगा।’ इस प्रकार मैं इस दुर्दशाकी प्राप्ति



हुआ था और आज आपको समागम होनेसे मेरा इस पाप-योनिमें उधार हुआ है।' यह कहकर वह महान् अमुर परशुरामजीको प्रणाम करके चला गया

"अब परशुरामजीने शोधमें भरकर कर्णसे कहा— 'मृतं ! तूने इस कौड़ेके काटनेकी जो मयंकर पीडा बरदासत की है, इसी ब्राह्मण कर्णो नहीं सह सकता। तेरा धर्म तो क्षत्रियके समान जान पड़ता है। सब-सब बता, तू कौन है ?' उनका प्रश्न सुनकर कर्ण शापके भयसे डर गया और उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा करता हुआ बोला— 'ब्रह्मन् ! मैं ब्राह्मण और क्षत्रियसे भिन्न मृत जातिमें उत्पन्न हुआ हूँ। लोग मुझे राधाका पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्रह्मात्मके लोमने मैंने भूटा परिचय दिया था, भूमपर कृपा कीजिये। विद्या प्रदान करनेवाला गुरु निसांदिह पितार्के ही समान है, इसीलिये मैंने आपके निकट अपना भाग्य-योग बतलाया था।'

"यह कहकर कर्ण दीन-भावसे हाथ जोड़कर उनके सामने पृथ्वीपर पड़ गया और परपर कांपने लगा। यह देख परशुरामजीने हँसने हुए-से कहा— 'मृतं ! तूने ब्रह्मात्मके लोमसे भूट बोलकर मेरे साथ कपट किया है, इसलिये जब तू सप्रायमे अपने समान योद्धाओं यद्ध करेगा और तेरी मृत्यु निकट आ जायगी, उस समय तुझे मेरे दिये हुए ब्रह्मास्त्रके स्मरण नहीं रहेगा। अब तू यहाँमें चला जा। मिथ्यावादीके लिये यहाँ स्थान नहीं है। परन्तु मेरे आशोर्वासे युद्धसे कोई भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा।' परशुरामजीके ऐसा बहनेपर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहाँसे लौट आया और दुर्वाधनसे बोला— 'म ब्रह्मात्म शीव आया।'

युधिष्ठिरका घर छोड़कर वनमें जानेका विचार और अर्जुनद्वारा इसका विरोध

नारदजीने कहा— 'राजन् ! एक बार कर्णकी जरा-सन्धके साथ भी मूठमेड़ हुई थी, उसमें परास्त होकर जरासन्धने कर्णको अपना मित्र बना लिया और उसे चम्पा नगरी उपहारमें दे दी। पहले कर्ण केवल अङ्ग देशका राजा था, किन्तु इसके बाद वह दुर्वाधनकी अनुमतिसे चम्पा (चम्पावन) में भी राज्य करने लगा। इसी प्रकार एक समय इन्द्रने आपकी भलाई करनेके लिये कर्णसे कवच और कुण्डलकी भील मांगी थी। वे कवच और कुण्डल दिव्य थे तथा कर्णके देहके साथ ही उत्पन्न हुए थे, तो भी उसने इन्द्रको ये दोनों वस्तुएँ दान कर दीं। इसीलिये अर्जुन भीकरणके सामने उसे मारनेमें सफल हो सके। एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा परशुरामने शाप दे दिया था; दूसरे उसने स्वयं भी कुन्तीको बरदान दिया था कि मैं तुम्हारे चार पुत्रोंको नहीं मारूँगा। इसके सिवा महारथियोंकी

गणना करते समय भीष्मने कर्णको 'अर्धरथी' कहकर अपमानित किया था, इसके बाद शल्यने भी उसका तेज नष्ट किया और भगवान् कृष्णने नीतिते काम लिया। इनकी बातें तो कर्णके विपरीत हुईं और अर्जुनको द्र, इन्द्र, धर्म, वरुण, कुबेर, द्रोण तथा कृपाचार्यसे दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका उपयोग करके उन्हीने कर्णका वध किया है। फिर भी वह युद्धने मारा गया है, इसलिये शोकने योग नहीं है।

वेशम्पायनजी कहते हैं— 'इतना बहुर देवों ने मारव चुप हो गये और राजा युधिष्ठिर शोकमें ही बिलाने डूब गये। उनको यह अवस्था देख कुन्ती अत्यन्त दुःखी हो उठी और मधुर वाणीमें अर्धभरे बरत करके बोली— 'बेटा ! कर्णके लिये शोक न करो। मैंने और भगवान् कोशिया की थी कि

हितैषी सुहृद्को जो कुछ कहना चाहिये, सूर्यदेवने वह सब कहा। उन्होंने उसे स्वप्नमें तथा मेरे सामने भी बहुत समझाया; परंतु हमलोग अपने प्रयत्नमें सफल न हो सके। वह भीतके बशीभूत होकर बदला लेनेको तैयार था, इसलिये मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी।'

माताकी बात सुनकर धर्मराजके नेत्रोंमें आंसू भर आये। वे शोकसे व्याकुल होकर कहने लगे—'मां! तुमने यह रहस्यमयी बात छिपा रखी थी, इसीलिये आज मुझे कष्ट भोगना पड़ता है।' फिर उन्होंने दुखी होकर संसारकी सब स्त्रियोंको शाप दे दिया—'आजसे कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी।' इसके बाद वे मरे हुए पुत्र-पौत्र, सम्बन्धी तथा सुहृदोंको याद करके बहुत विकल हो गये और अर्जुनकी ओर देखकर कहने लगे—'अर्जुन! यदि हमलोग वृष्णिवंशी तथा अन्धकवंशी क्षत्रियोंके नगरोंमें जाकर भिक्षासे अपना जीवन-निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुम्बको निर्वाण करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। क्षत्रियके आचार और उसके बल, पौरुष तथा अमर्षको भी धिक्कार है, जिनके कारण हम इस विपत्तिमें पड़ गये। क्षमा, दम, शीघ्र, वैराग्य, मात्सर्यका अभाव, अहिंसा और सत्य बोलना—ये वनवासियोंके धर्म ही श्रेष्ठ हैं। किंतु हमलोग तो लोभ और मोहके कारण राज्य पानेकी इच्छासे दम्भ और मानका आश्रय ले इस दुर्दशामें फँस गये हैं। इस समय तीनों लोकोंका राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। हाय! हमने इस पृथ्वीपर अधिकार पानेके लिये अवध्य राजाओंकी भी हत्या की और अब अपने बन्धु-बान्धवोंके बिना हम अर्थश्रष्टकी भाँति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओह! जिन बान्धवोंका हमने वध किया है उन्हें तो सारी पृथ्वी, सुवर्णके ढेर और बहुत-से गाय-घोड़े आदिकी प्राप्ति होनेपर भी हमें नहीं मारना चाहिये था; किंतु हमने उन्हें मार ही डाला। यह शोक हमें चैन नहीं लेने देता। धनञ्जय! सुना है मनुष्यका किया हुआ पाप शुभकर्मोंके आचरणसे, दूसरोंको कहकर सुनानेसे, पश्चात्तापसे तथा दान, तप, त्याग, तीर्थयात्रा एवं श्रुति-स्मृतियोंका पाठ करनेसे भी नष्ट होता है। श्रुतिने कहा है कि त्यागी पुरुषको जन्म-मरणकी प्राप्ति नहीं होती—वह अमृतत्वकी प्राप्ति होता है। * इसके अनुसार योग-मार्गको प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, उस समय मनुष्य परमात्मभावको प्राप्त हो जाता है। यह सोचकर मैं भी शीत-ज्ज्वल आदि द्वन्द्व-धर्मोंसे रहित हो, मुनिवृत्तिसे रहकर ज्ञानोपाजन करना

'त्यागनेके अमृतत्वमानशुः।'

चाहता हूँ। इसलिये मैंने सारा संग्रह, सम्पूर्ण राज्य तथा सुख-भोग आदिको त्याग देनेका निश्चय किया है। अब मैं ममता और शोकसे रहित हो सब प्रकारके बन्धनोंसे छूटकर कहीं जंगलमें चला जाऊँगा, मुझे राज्य अथवा भोगोंसे कोई मतलब नहीं है।'

यह कहकर जब धर्मराज चुप हो गये तो अर्जुन बोले—'महाराज! यह बड़े अपसोसकी बात है और हृदयोंकी कायरता है, जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राज्य-लक्ष्मीको ठुकरा देनेके लिये उद्यत हुए हैं।



यदि त्याग ही देना था तो आपने क्रोधमें आकर इसके लिये तमाम राजाओंकी हत्या क्यों करायी? अपने समृद्धिशाली राज्यका परित्याग करके जब हाथमें खप्पर लेकर आप घर-घर भीख माँगते फिरेंगे, उस समय संसार क्या कहेगा? क्या कारण है कि सब प्रकारके शुभ कर्मोंका अनुष्ठान छोड़कर अशुभ एवं अकिञ्चन बनकर आप गँवार मनुष्योंकी तरह भिक्षा माँगना पसंद करते हैं। इस उत्तम राजवंशमें जन्म लेकर सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने अधीन करके अब आप धर्म और अर्थका परित्याग कर वनकी ओर जा रहे हैं! यह भूलताना नहीं तो क्या है? जब आप ही हवन एवं यज्ञ-यागादि कर्मोंको त्याग देंगे तो दूसरे असाधु पुरुष आपका ही आदर्श सामने रखकर यज्ञोंका उच्छेद कर डालेंगे। उस

दरामे इसका सारा पाप आपको समेगा। सर्वस्व त्यागकर अकिञ्चन हो जाना, दूसरे दिनके लिये संग्रह न करके प्रतिदिन माँगकर खाना—यह मुनियोंका धर्म है, राजाओका नहीं; राजधर्मका पालन तो धनसे ही होता है। महाराज! धनसे धर्म भी होता है, लौकिक कामनाएँ भी पूर्ण होती हैं और स्वर्गका साधनभूत यज्ञ भी सम्पन्न होता है; यही नहीं, धनके बिना तो संसारकी जाँबिका ही नहीं चल सकती। जिसके पास धन होता है, उसीके बहुतसे मित्र तथा बन्धु-बान्धव होते हैं, वही मर्द सम्माना जाता है और वही पण्डित माना जाता है। निर्धन मनुष्य जब धन चाहता है तो उसे उसकी प्राप्ति कठिन हो जाती है; मगर धनवान्का धन बढ़ता रहता है। जैसे जंगलमें एक हाथीके पीछे बहुतसे हाथी चलते आते हैं, उसी प्रकार धन ही धनको खींच साता है। धनसे धर्मका पालन, कामनाकी पूर्ति, स्वर्गकी प्राप्ति, आनन्द तथा शास्त्रोंका अभ्यास—ये सब कुछ सम्भव हैं। धनसे वंशकी मर्यादा बढ़ती है और धनसे धर्मकी भी वृद्धि होती है, निर्धनको तो न इस सोकमें सुल है, न परलोकमें! बर्षोंके धनके बिना मनुष्य धार्मिक कृत्योंका विधिबद्ध अनुष्ठान नहीं कर सकता। जिसके पास धनकी कमी है, गीओ और सेवकोंका अभाव है, जिसके यहाँ अतिथियोंका आना-जाना नहीं होता, वही मनुष्य दुर्बल है। केवल शरीरकी ही दुर्बलतासे कोई

दुर्बल नहीं कहा जाता। राजाको हर तरहसे धनका संग्रह करना चाहिये और उसके द्वारा मनपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान भी करने रहना चाहिये। यही सनातन कातमे बेदोंकी भी आशा है। धनसे ही मनुष्य यज्ञ करते और कराते हैं, पढ़ने-पढ़ानेका कार्य भी धनसे ही सम्पन्न होता है। राजालोग दूसरोंकी वृद्धमें जोतकर जो उनका धन ले आते हैं, उसीसे ये सम्पूर्ण शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं। किसी भी राजाके पास हम ऐसा धन नहीं देखते, जो दूसरोंके यहाँसे न आया हो। प्राचीनकातमें जो रक्षित हो गये हैं और इस समय स्वर्गमें निवास करते हैं, उन्होंने भी राजधर्मको ऐसी ही ध्यात्या की है। राजन्! पहले यह पृथ्वी राजा दिलीपके अधिकारमें थी; फिर क्रमशः इसपर नृग, नृह्य, अश्वरोप और मान्धाताका आधिपत्य हुआ। यही आज आपके अधीन हुई है। अतः जहाँ राजाओंकी मूर्ति आपके लिये थी, जिसमें सब कुछ दक्षिणाके रूपमें दान कर दिया जाता है, ऐसे सर्ववदक्षिण नामक द्रव्यमय यज्ञ करनेका समय प्राप्त हुआ है। जिनका राजा दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ करता है, ये सभी प्रजाएँ उस यज्ञके अन्तमें अवभृथ-स्नान करके पवित्र होती हैं। अतः आप समस्त प्राणियोंके कल्याणार्थ यज्ञ कीजिये। क्षत्रियोंके लिये यही सनातन मार्ग है, यही अभ्युदयका पथ है।'

मुधिष्ठिरका वनवासी, मुनि एवं संन्यासी होनेका विचार और भीम और अर्जुनद्वारा उसका विरोध

मुधिष्ठिरने कहा—अर्जुन! छोड़ी देरतक मनको एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उसपर विचार करो; फिर तुम भी मेरे कथनका अनुमोदन करोगे। क्या तुम्हारे कहनेसे मैं उस मार्गपर न चलूँ, जिसपर श्रेष्ठ पुण्य सदा ही चलते आये हैं? नहीं, मुझसे यह न होगा; मैं तो सांसारिक सुखोंपर लात मारकर अवश्य उसी मार्गपर चलूँगा और यन्में फल-भूत धाकर कठोर तपस्या करूँगा। सवेरे तथा सायंकालमें स्नान करके विधिबद्ध अग्निमें आहुति डालूँगा और शरीरपर मृगछाला तथा धत्कल-वस्त्र धारण कर वस्त्रकपर जटा रखूँगा। सर्वो-गर्भों, हवा तथा मूल-प्यासका कष्ट सहन करूँगा और शास्त्रोक्त विधिसे तप करके अपने शरीरको सुखा डालूँगा। एकान्तमें रहकर तत्त्वका विचार किया करूँगा और कच्चा-पक्का—जैसा भी फल मिल जायगा, उसीको खाकर जीवन-निर्वाह करूँगा। इस प्रकार वनवासी मुनियोंके कठोर-से-कठोर नियमोंका पालन करके इस

शरीरकी आयु समाप्त होनेकी बात देखता रहूँगा। अथवा मुनि-वृत्तिसे रहता हुआ मस्तक मुंडा संगा और एक-एक दिन एक-एक वृक्षसे प्रिया माँगकर देहको दुर्बल कर डालूँगा। प्रिय और अप्रियका विचार छोड़कर पेड़के ही मोचे निवास करूँगा। किसीके लिये न शोक करूँगा न हर्ष। निन्दा तथा स्तुतिको समान समझूँगा। आशा और ममताको धो-बहाकर निर्द्वन्द्व हो जाऊँगा। कभी किसी भी वस्तुका संग्रह न करूँगा। आत्मामे ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न रहूँगा। दूसरोंके साथ कभी कोई बात नहीं करूँगा तथा अंधों, मूर्खों और बहुरोंकी तरह विचरता रहूँगा। घर और अचररूपमें जो चार प्रकारके जीव हैं, उनमेंसे किसीकी भी हिंसा नहीं करूँगा। सब प्राणियोंपर मेरी समान वृद्धि होगी, न तो किसीकी हँसी उड़ाऊँगा न किसीकी देखकर भौंहें देँदी करूँगा। चेहरेपर सदा प्रसन्नता छायी रहेगी, सब इन्द्रियोंकी पूर्णरूपसे यशमें रबलूँगा। कोई भी राह पकड़कर मार्ग

बढ़ता रहूँगा, किसीसे भी रास्ता नहीं पूछूँगा। किसी खास देश या दिशामें जानेकी इच्छा न रखूँगा। यात्राका कोई विशेष उद्देश्य न होगा; न आगेकी उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखूँगा। चित्तमें कोई विकार नहीं रहेगा, अन्तरात्मापर दृष्टि रखूँगा और देहाभिमानसे रहित हो जाऊँगा। भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन—इसका विचार नहीं करूँगा। एक घरसे भिक्षा न मिली तो दूसरे घरसे माँगूँगा, वहाँ भी न मिलनेपर तीसरे घरसे। इस प्रकार न मिलनेकी दशामें सात घरोंतक माँगूँगा, आठवेंपर नहीं जाऊँगा। जब घरोंमें धुआँ निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, अंगारे बुझ गये हों, सब लोग खा-पी चुके हों, परोसी हुई थालीको इधर-उधर ले जानेका काम समाप्त हो गया हो, भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गये हों, ऐसे समयमें मैं एक ही वयत भिक्षाके लिये जाया करूँगा। सब ओरसे स्नेहका बन्धन तोड़कर पृथ्वीपर विचरता रहूँगा। न जीवनसे राग होगा, न मृत्युसे द्वेष। यदि एक मनुष्य मेरी एक बाँह बसूलेसे काटता हो और दूसरा दूसरी बाँहपर चन्दन चढ़ाता हो तो मैं उन दोनोंपर समान भाव ही रखूँगा। न एकका मङ्गल चाहूँगा न दूसरेका अमङ्गल। केवल शरीर-निर्वाहके लिये पलकोंके खोलने-मीचने तथा खाने-पीने आदिका कार्य करूँगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूँगा। सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापारोंसे उपरत होकर मनके संकल्पको अपने अधीन रखूँगा। बुद्धिके मलका परिमार्जन करके सब प्रकारकी आसक्तियोंसे मुक्त रहूँगा। इस प्रकार वीतराग होकर विचरनेसे मुझे अक्षय शान्ति मिलेगी। इस अपार संसारमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओंका आक्रमण होता ही रहता है; इसके कारण यहाँका जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। इसे तो त्यागनेमें ही सुख है। आज बहुत दिनोंके बाद मुझे विशुद्ध विवेकरूपी अमृत प्राप्त हुआ है; इसके द्वारा मैं अक्षय, अविचारी एवं सनातन स्थानको प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः उपर्युक्त धारणाके द्वारा निरन्तर विचरता हुआ मैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओंसे भरे हुए इस शरीरका अन्त करके निर्भय पदको प्राप्त हो जाऊँगा।

यह सुनकर भीमसेन बोले—राजन् ! जब आपने राजधर्मकी निन्दा करके आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करनेका ही निश्चय कर रखा था तो बेचारे कौरवोंका नाश करानेसे क्या लाभ था ? आपका यह विचार यदि पहले ही मालूम हो गया होता तो हमलोग न हथियार उठाते, न किसीका वध करते। आपहीकी तरह शरीर त्यागनेका संकल्प लेकर हम भी भीख ही माँगते। ऐसा करनेसे राजाओंके साथ यह

भयंकर संग्राम तो नहीं होता। बुद्धिमान् पुरुषोंने क्षत्रियोंका तो यह धर्म बताया है कि वे राज्यपर अधिकार जमावें और यदि उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करें तो उन्हें मार डालें। दुष्ट कौरव भी हमारे लिये राज्य-प्राप्तिमें बाधक थे, इसीलिये हमने उनका वध किया है; अब आप धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका उपभोग कीजिये। अन्यथा हमलोगोंका सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जायगा; जैसे कोई मनुष्य मनमें किसी तरहकी आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिल तै करे और वहाँ पहुँचनेपर उसे निराश लौटना पड़े, यही दशा हमलोगोंकी भी होगी। आप जिस संन्यासकी बात सोचते हैं, उसका यह समय नहीं है। जिनकी विचारदृष्टि सूक्ष्म है, वे बुद्धिमान् पुरुष ऐसे अवसरपर त्यागकी प्रशंसा नहीं करते; वे तो इसमें स्वधर्मका उल्लङ्घन समझते हैं। जो पुत्र-पौत्रोंके पालनमें असमर्थ हो, देवता, ऋषि एवं पितरोंका तर्पण न कर सके और अतिथियोंको भोजन देनेकी शक्ति न रखता हो, ऐसा मनुष्य जंगलोंमें जाकर मौजसे अकेला जीवन व्यतीत कर सकता है। आप-जैसे शक्तिशाली पुरुषोंका यह काम नहीं है। राजाको तो कर्म ही करना चाहिये; जो कर्मोंको छोड़ बैठता है, उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती।

तत्पश्चात् अर्जुनने कहा—महाराज ! इसी विषयमें एक बार तपस्वियोंके साथ इन्द्रका संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। एक समयकी बात



है, कुछ कुलीन ब्राह्मण-यालक—जो अभी बहुत नादान थे, जिन्हें मूलतक नहीं आयी थी—घर-बार छोड़कर जंगलमें चले आये, संन्यासी बन गये। इसीको धर्म मानकर वे प्रसन्न थे। भाई-बन्धु और माँ-बापकी सेवासे मुंह मोड़कर ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे। एक दिन उनपर इन्द्रदेवकी कृपा हुई। वे सुवर्णमय पक्षीका रूप धारण करके उनके पास गये और उन्हें सुनाकर कहने लगे—'यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करनेवाले महात्माओंने जो कर्म किया है वह दूसरे मनुष्योंसे होना कठिन है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मत्पिा पुण्य उत्तम गतिको प्राप्त हुए हैं।'

ऋषियोंने कहा—वाह ! यह पक्षी यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करनेवालोंकी प्रशंसा करता है, यह तो हमलोगोंकी ही प्रशंसा हुई; क्योंकि हमलोग ही यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करते हैं !

पक्षीने कहा—अरे ! मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। तुम तो जूटा खानेवाले और भूख ही, पाप-पंक्तमें फसे हुए हो। यज्ञशिष्ट अन्न खानेवाले तो दूसरे ही होते हैं।

ऋषियोंने कहा—पक्षी ! यह बड़ा कल्याणकारो साधन है—ऐसा समझकर ही हम इस मार्गका अवलम्बन किये बैठे हैं। अब तुम्हारी बात सुनकर तुमपर हमारी धृष्टा हुई है; अतः जो अत्यन्त कल्याण करनेवाला साधन हो, वही हमें बताओ।

पक्षीने कहा—यदि तुम्हारा मूर्खपर विश्वास है तो मैं पयायं बात बताता हूँ, सुनो। चौपायोंमें गी, धातुओंमें सोना, शब्दोंमें प्रणय आदि मन्त्र और मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणके लिये जातकर्मदि संस्कार शास्त्रविहित हैं; ब्राह्मण जबतक जीवित रहे, समय-समयपर उसका संस्कार होता रहना चाहिये। मरनेके परचात् भी उसका समझान-

मूमिमें अन्धेष्टि-संस्कार तथा घरपर धाड़ दादि बेव-विधिके अनुसार होना उचित है। वेदोक्त यज्ञ-यागादि कर्म ही उसके लिये स्वर्गमें पहुँचानेवाले उत्तम मार्ग हैं। वैदिक कर्म ही सिद्धिका क्षेत्र है, सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं। जहाँ इन कर्मोंका विधिवत् सम्पादन होता है, वह गृहस्थ-आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। जो कर्मकी निन्दा करते हैं, उन्हें कुमार्गगामी क्षमम्नना चाहिये। उन्हें बड़ा पाप सगता है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ—ये ही तीन सनातन मार्ग हैं। जो मूलमें इनका परित्याग करके और किसी मार्गसे चलते हैं, वे वेदविद्वद्द ययका आश्रय लेने-वाले हैं। हवनके द्वारा देवताओंको, स्वाध्यायद्वारा ऋषियोंको और श्राद्धद्वारा पितरोंको तृप्त करना—यह सनातन धर्म हैं; इसका पालन करते हुए मुदजनोंकी सेवा करना हो कठोर तप है। इस बुद्धर तपस्याको करके ही देवताओंने बहुत बड़ी विभूति पायी है। जिनकी किताफे प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकारके इन्द्रोसे रहित हैं, ऐसे ब्राह्मण इसीको तप मानते हैं। संसारमें व्रतको ही तप कहते हैं, किंतु यह इसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणोका है। जो यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करते हैं, उन्हें अविनाशी पदको प्राप्ति होती है। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा परिवारके अन्य लोगोंको अन्न देकर जो स्वयं सबसे पीछे खाते हैं, वे ही यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करनेवाले कहे गये हैं। अपने धर्मपर आरुढ़ होकर सुन्दर व्रतका पालन और सत्य-भाषण करते हुए वे इत जगत्के गुरु समझे जाते हैं।

अर्जुन कहते हैं—महाराज ! ये ब्राह्मण-जुमार पक्षि-रूपधारी इन्द्रकी धर्म और अमंयुक्त बातें सुनकर इस निरक्षरपर पहुँचे कि 'हमलोग जिस स्थितिमें हैं, यह हितकर नहीं है।' इसलिये वे बनवास छोड़कर घर लौट गये और गृहस्थ-धर्मका पालन करने लगे। अतः आप भी धर्म धारण करके सम्पूर्ण भूमण्डलका अकण्टक राज्य कीजिये।

युधिष्ठिरको नकुल, सहदेव तथा द्रौपदीका समझाना

अर्जुनकी बात समाप्त होनेपर नकुलने भी उन्हींका अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठिरसे कहा—'राजन् ! विशालरूप नामक क्षेत्रमें सम्पूर्ण देवताओंद्वारा की हुई अग्निस्थापनाके चिह्न मौजूब हैं; इससे आपको यह समझना चाहिये कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलोमें विश्वास करते हैं। जो वेदोंकी आत्माके विद्वद्द चलते हैं, उन्हें तो महान् नास्तिक मानना चाहिये। वैदिक कर्मोंका परित्याग


करके कोई भी स्वर्गमें नहीं जा सकता। वेदवेत्ता विद्वान् कहते हैं—यह गृहस्थाश्रम सब आश्रमोंमें श्रेष्ठ है। श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको राय भी सुन लीजिये—'जो धर्मपूर्वक उपार्जन किये हुए धनका धनादि कर्मोंमें उपयोग करता है, वह शुद्धात्मा मनुष्य ही त्यागी है।' जिनका कोई घर-बार नहीं, जो इधर-उधर विचरते और मौन रहकर ब्रह्मचर्य लीये सो रहते हैं, जो कर्मों रसीदें नहीं बनाते और म-

वगैरे स्वतः हैं, ऐसे त्यागियोंको सिद्ध (संन्यासी) कहते हैं। जो ब्राह्मण जोष और हर्ष नहीं करता, किमोकी चूषणो नहीं करता तथा प्रतिदिन देवोंका स्वाध्याय करता है, वह त्यागी कहा जाता है। एक समय महाप्रयोगे च्युरी आश्रमोंको विवेकके तराकुर तौन्दा; तीन आश्रम एक और थे और अकेला गृहस्थाश्रम दूसरी ओर। किन्तु वह विचारसे उन तीनोंको अनेका महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तबसे उन्होंने निम्नत्र किया कि यही मुनियोंका मार्ग है, यही लोकदेताओंकी गति है। जो ऐसी भावना रखता है, वह भी त्यागी है। घर छोड़कर जंगलमें चले जानेसे ही कोई त्यागी नहीं होता। जंगलमें जाकर भी जिसके हृदयमें कामना जाग्रत होती है, उसके गर्भमें यमराज मौतका अंदा टाल देते हैं; गण, दम, धर्म, सत्य, गौच, सग्नता, यज्ञ, धारणा तथा धर्म—इन सबका ही निरन्तर पालन ऋषियोंके लिये बताया गया है। विद्वानों, देवताओं तथा अतिथियोंका पोषण तो गृहस्थाश्रममें ही होता है। केवल इसी आश्रममें धर्म, अर्थ और काम—ये तीन पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ रहकर देवब्रिह्म विधिक पालन करनेवाले त्यागीका कभी विनाश नहीं होता—वह पारलौकिक उत्पत्तिसे कभी अचिन्त नहीं होता। कुछ ऋषि सदग्रन्थोंका स्वाध्यायरूप यज्ञ करनेवाले होते हैं, कुछ मानवजन्में उत्तर रहते हैं और कुछ लोग मनमें ही ध्यानरूप महान् यज्ञका विस्तार करते हैं। चिन्तको एकाग्र करनाचय जो साधन-मार्ग है, उसका आश्रय नैवेद्याना द्विज कृष्णमृत हो जाता है, देवता भी उसके दर्शनके लिये उत्पन्न रहते हैं। जिसपर कृदुम्बका भार हो, उस राजाके लिये गृहस्थाश्रमका विधान नहीं देखनेमें आता। उसे तो राजपूय, अग्नेध, सवेधेध या और कोई शास्त्रीय यज्ञ करके उसमें धनका दान करना चाहिये। राजाके प्रमादसे लुटेरे प्रबन्ध होकर प्रजाको लुटने लगते हैं, उस अवस्थामें यदि राजाने प्रजाको शरण नहीं दी तो उसे कनियुगका मूर्तिमान् स्वरूप ही समझना चाहिये। जो दान नहीं देते, शरणार्थियोंको रक्षा नहीं करते, वे राजा पापके भागी होते हैं; उन्हें दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ता है, सुख तो कभी नसोच नहीं होता। भीतर और बाहर जो कुछ भी मनको फेंसानेवाली चीजें हैं उन्हें छोड़नेसे समुध्य त्यागी बनता है, सिर्फ घर छोड़ देनेसे त्यागको सिद्धि नहीं होती। जो शास्त्रीय विधानमें सदा लगा रहता है, उसको कभी हानि नहीं होती। महाराज ! पूर्वजनों राजाओंने जिसका सेवन किया है उस स्वधर्ममें स्थित रहकर शत्रुओंपर विजय पानेके पश्चान् भना, आपके सिवा दूसरा कौन शोकर करेगा ?”

तदनन्तर सहदेवने कहा—‘भारत ! केवल बाह्यके

पदार्थोंका त्याग करनेमें सिद्धि नहीं मिलती। शरीरमें सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुओंको छोड़ देनेमें भी सिद्धि मिलती है या नहीं, इनमें संदेह है। ब्राह्मण पदार्थोंका त्याग करके देहिक सुख-भोगोंमें आसक्त रहनेवालेको जो धर्म या सुख प्राप्त होता है, वह तो हमारे शत्रुओंको ही। किन्तु देहिक स्वार्थमें आनेवाली वस्तुओंकी मनना छोड़कर अनासक्त भावसे पृथ्वीका राज्यभासन करनेवालेको जिस धर्म अथवा सुखकी प्राप्ति होती है, वह हमारे हिन्दुओंको मिले। दो अक्षरोंका ‘यम’ (यह मेरा है—गंगा भाव) मृत्यु है और तीन अक्षरोंका ‘न यम’ (यह मेरा नहीं है—ऐसा भाव) अमृत—सनातन रह्य है। महाराज ! यदि जोष नित्य है, इसका अविनाशो होना निश्चित है, तो प्राणियोंके शरीरका वध करनेमात्रसे वास्तवमें उनकी हिंसा नहीं होगी। इसके विपरीत यदि शरीरके साथ ही जीवकी उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होनेके साथ ही जीवका भी नाश माना जाय, तब तो सारा वैदिक कर्ममार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिये विज पुरुषको एकान्तमें रहनेका विचार छोड़कर पूर्वपुरुषोंने जिस मार्गका सेवन किया है, उसीका आश्रय लेना चाहिये। राजन् ! वनमें रहकर वहिके फल-फूलोंसे जीविका चलाना हुआ भी जो इष्योमें समता रखना है, वह मौनके ही मुखमें है। प्राणियोंका बाह्य स्वरूप कुछ और होता है और आन्तरिक स्वरूप कुछ और; आप उसपर गौर कीजिये। जो सबके भीतर विराजमान आत्माको देखते हैं, वे ही महान् भयसे छटकारा पाते हैं। आप मेरे पिता, माता, भाई तथा गुरु—सब कुछ हैं। मैं शत्रु हूँ, इसलिये दुःखमें न जाने क्या-क्या प्रनाप कर गया है; आप उसे क्षमा करें। मैंने नृत्ता-सच्चरा जो कुछ भी कहा है, वह आपके चरणोंमें मक्ति होनेके कारण ही कहा है।’

वैशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार अपने भाइयोंके सुलभमें वेदके सिद्धान्तोंको मुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप हो रह गये तो धर्मकी जाननेवाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर उन्हें सधुर वचनोंसे समझाती हुई कहने लगी—‘महाराज ! आपके ये भाई आपके संकल्प मुनकर मूल गये हैं, पराहेकी तरह रट लगा रहे हैं; फिर भी आप अपनी बातोंसे इन्हें प्रसन्न नहीं करते ! क्यों ? ये सदा आपके लिये दुःख-ही-दुःख उठाते आये हैं ? अब तो इन्हें उचित बातें मुनाकर आनन्दित कीजिये । आपको पाद होगा, जब ईतवन्में वे सभी भाई आपके साथ सदा-गर्मा और श्रांयो-पानीका कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धर्म देते हुए कहा था—‘वन्धुओ ! हमलोग युद्धमें दुर्घोषनको मारकर इस सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य भोगेंगे। उस समय बड़े-बड़े यज्ञ करके पर्याप्त दान-दक्षिणा बाँटते रहनेमें तुम्हारा वनवासका यह



दुःख सुखके रूपमें परिणत हो जायगा। धर्मराज ! यदि यही करना था, तो उस समय आपने दैत्यी बातें क्यों कहीं ? जब स्वयं उपयुक्त धार्तृ कहकर हीसला बढ़ाया, तो अब क्यों आप हृमत्स्योगोका दिल तोड़ रहे हैं ? आपको दण्ड आदिके द्वारा इस पृथ्वीका पालन करना चाहिये; क्योंकि दण्ड न देनेवाले क्षत्रियकी शोभा नहीं होती, दण्ड न देनेवाला राजा इस पृथ्वीका उपभोग नहीं कर सकता तथा उसकी प्रजाकी भी सुख नहीं मिलता। राजाओंका परम धर्म तो यही है कि वे बुद्धोंको दण्ड दें, सत्पुरुषोंका पालन करें और युद्धमें कभी पीठ न दिखायें।

“जो अवसर देखकर क्षमा भी करता है और क्रोध भी, दान देता और कर लेता है, शत्रुओंको भय दिताता और शरणागतोंको निर्भय बनाता है तथा बुद्धोंको दण्ड देता और दीनोंपर अनुग्रह करता है, यह राजा धर्मात्मा कहलाता है। आपको यह पृथ्वी न तो शास्त्र सुनानेसे मिलती है, न दानमें;

न आपने किसीको सम्मान-बुझाकर इसे हृदय लिया है, न यज्ञमें प्राप्त किया है और न भोज्य मारकर ही पाया है। आपने तो शत्रुओंकी प्रबल सेनाका संहार करके इसपर विजय पायी है, इसलिये आप इस पृथ्वीका उपभोग कीजिये। महाराज ! अनेकों देशोंसे युक्त सम्पूर्ण जम्बूद्वीपपर आपने कर लगाया; जम्बूद्वीपके समान ही जो मेरुद्वीपके परिचयम श्रौचद्वीप है, उसपर अधिकार जमाया, मेरुसे पूर्व दिशामें श्रौचद्वीपके समान ही जो शाकद्वीप है, उसपर भी कर लगाया तथा मेरुसे उत्तर ओर जो शाकद्वीपके बराबर ही भद्रावद्वीप है, उसके ऊपर भी शासन किया है। इनके अतिरिक्त भी जो बहुत-से देशोंके आश्रयभूत द्वीप और अन्तर्द्वीप हैं, समुद्र सांघ-कर उनपर भी आपने अधिकार प्राप्त किया। भाइयोंकी सहायतासे ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातियोंद्वारा सम्मानित होकर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं होते ? मेरे अनुरोधसे अपने इन भाइयोंका अभिनन्दन कीजिये।

“महाराज ! मेरी सास कभी मूठ नहीं बोलती, वे सर्वज्ञ हैं और सब कुछ उनकी दृष्टिके सामने है। उन्होंने मुझसे कहा था ‘पाण्डवात्तराजकुमारो ! राजा युधिष्ठिर बड़े पराक्रमी हैं, वे हजारों राजाओंका संहार करके सुगहें बड़े सुखसे रक्त्तों।’ किन्तु आज आपका मोह देखकर उनकी बात भी ध्यय होती दिखायी देती है। जब जेठा भाई उन्मत्त हो जाता है, तो छोटे भी उसीका अनुसरण करने लगते हैं। आपको उन्मादसे सब पाण्डव भी उन्मत्त हो गये हैं। जो उन्मत्तताका काम करता है, उसका कभी भसा नहीं होता; उन्मागंसे चलनेवालेको तो दबा करानी चाहिये। मैं ही संसारको समस्त स्त्रियोंमें नीच हूँ, जो बेटोंके मारे जानेपर भी जीवित रहना चाहती हूँ। ये सब लोग समझानेका प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप मानते नहीं। मैं सच कहती हूँ, आप सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य छोड़कर अपने लिये स्वयं विपत्ति बुला रहे हैं। राजन् ! आप माघाता और अन्धरीयके समान तेजस्वी हैं; सम्पूर्ण प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करते हुए पर्वत, यन तथा द्वीपोंसहित इस पृथ्वीका शासन कीजिये। उदास न होइये। नाना प्रकारके वध करके ब्राह्मणोंको दान दीजिये।”

अर्जुनद्वारा दण्डनीतिका समर्थन और भीमका युधिष्ठिरको राज्यकी ओर आकृष्ट करनेका प्रयास

सैनाभ्यायनजी कहते हैं—दुपदुभारोकी बातें सुनकर राजा युधिष्ठिरकी आत्मा से अर्जुन फिर बहने लगे—
“राजन् ! दण्ड ही समस्त प्रजाओंका शासन और उनकी

रक्षा करता है, सबके लो जानेपर भी दण्ड जागता रहता है; इसलिये विद्वानोंने दण्डको राजाका धर्म बताया है। दण्डसे ही धर्म, अर्थ और कामकी रक्षा होती है। दण्ड त्रिवर्ण

कहलाता है। दण्ड ही धन और धान्यकी रक्षवाली करती है, इसलिये आप दण्ड धारण कौजिये। संसारकी ओर देखिये—कितने ही पापी दण्डके ही भयसे पाप नहीं करते; दण्डसे ही सारी व्यवस्था ठीक-ठीक चलती है। बहुत-से मनुष्य दण्डके डरसे ही एक-दूसरेका सर्वनाश नहीं करते। यदि दण्ड सबकी रक्षा न करता तो संसारके प्राणी घोर अन्धकारमें डूब जाते। यह उच्छृङ्खल मनुष्योंका दमन करता और दुष्टोंको दण्ड देता है, इसीलिये विद्वान् पुरुष इसे 'दण्ड' कहते हैं। यदि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे चाणोसे अपमानित करना ही उसका दण्ड है, क्षत्रियको भोजनमादकके लिये बेलन देकर सेवा लेना उसका दण्ड है; व्रज्यका दण्ड उससे जुड़माना बमूल करना है; किन्तु शूद्रके लिये सेवार्थे अतिरिक्त दूसरा कोई दण्ड नहीं है, उससे दण्डके रूपमें भी काम ही लिया जाता है। मनुष्योंको प्रमादसे बचाने और उनके धनकी रक्षा करनेके लिये जो एक मर्यादा बांधी गयी है, उसीको दण्ड कहते हैं। गृह्यकारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी—ये सब दण्डके ही भयसे अपने-अपने मार्गपर स्थित रहते हैं। बिना भयके न कोई यज्ञ करता है, न दान देता है और न प्रतिज्ञा-पालनपर ही दृढ़ रहना चाहता है।

“इन्द्र, कार्तिकेय, इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, रवि, वसु, साध्य तथा विश्वेदेव—ये सभी देवता दण्ड देनेवाले हैं; अतः इनके प्रतापके सामने माया टेककर सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं, सभी इनकी पूजा करते हैं। मैं संसारमें किसीको ऐसा नहीं देखता, जो अहिंसासे जीविका चलाता हो; [क्योंकि प्रत्येक क्रियामें कुछ-न-कुछ हिंसाका सम्बन्ध ही ही जाता है।] जो विघाताका विधान है, उसमें विद्वान् पुरुषको मोह नहीं होता। महाराज ! जिस जातिमें आपका जन्म हुआ है, उसीके अनुसार आपको बर्ताव करना चाहिये। पानीमें बहुतेरे जीव हैं, पृथ्वीपर तथा वृक्षके फलोंमें भी बहुत-से कीड़े होते हैं; कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो इनकी हिंसासे सर्वथा बचा रहता हो। परन्तु इसे जीवन-निर्वाहके सिवा और क्या कहा जा सकता है? कितने ऐसे मूक कीटाणु होते हैं, जिनका अनुमानसे ही पता लगता है। मनुष्योंके फलक गिरानेमात्रसे उनके कंधे टूट जाते हैं। अतः ऐसे जीवोंकी हिंसासे कहांतक बचाव हो सकता है ?

“अजसे जगत्में दण्डनैतिकता प्रचार हुआ है, तबसे सम्पूर्ण प्राणियोंके सभी कार्य सुचारुरूपसे होने लगे हैं। संसारमें भले-बुरेका विभाग करनेवाला दण्ड यदि न होता तो सब जगह अंधेर मचा रहता, किसीको कुछ भी मूक नहीं पड़ता। जो धर्मका मर्यादा नष्ट करके बेवोंकी निन्दा करने-

वाले नास्तिक मनुष्य हैं, वे भी दंडे पड़नेपर जल्दी राहपर आ जाते हैं। दुर्निर्वायं सर्वथा गूढ़ मनुष्य मिलना कठिन है, सब दण्डसे विवश होकर ही ठीक रास्तेपर रहते हैं। दण्डके भयसे ही लोगोंकी मर्यादा-पालनमें प्रवृत्ति होती है। चारों बर्णोंके लोग आनन्दसे रहें, सबमें अच्छी नीतिका बर्ताव हो और पृथ्वीपर धर्म तथा अर्थकी रक्षा रहे—इस उद्देश्यसे ही विघाताने दण्डका विधान किया है। यदि पक्षी तथा हिंसक जीव दण्डसे डरते न होते तो वे पशुओं, मनुष्यों तथा यज्ञके लिये रक्खे हुए हविष्योंको भी खा जाते। चारों ओर धर्म-कर्मका तोष हो जाता और सारी मर्यादाएँ टूट जातीं। इतना ही नहीं, जिनमें विधिपूर्वक बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ दी जाती हैं, वे संवत्सर-यज्ञ भी वेष्टके नहीं होने पाते। आश्रम-धर्मका ठीक-ठीक पालन नहीं होता और कोई भी विद्या नहीं पढ़ पाता। दंडे पड़नेका डर न होता तो रथोंमें जुते हुए कंट, ब्रंत, घोड़े, खच्चर तथा गदहे उन्हे खींचते ही नहीं। सेवक अपने स्वामिका तथा बालक माता-पिताका कहना नहीं मानते और युवती स्त्री अपने सतीधर्मपर स्थिर नहीं रहती। दण्डपर ही सारी प्रजा टिकी हुई है, दण्डसे ही भय होता है, मनुष्योंका इहलोक और परलोक दण्डपर ही प्रतिष्ठित है। जहाँ दण्ड देनेका मुन्दर विधान है, वहाँ छल, पाप और ठगी नहीं देखनेमें आती। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्यके सब कार्य धनके अधीन हैं, परन्तु धन दण्डके अधीन है। देखिये, दण्डकी कितनी महिमा है।

“लोक-यात्राका निर्वाह करनेके लिये धर्मका प्रतिपादन किया गया है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसमें सबके-सब गुण ही हों अथवा जो सर्वथा गुणसि बन्धित ही हो। प्रत्येक कार्यमें अच्छाई और बुराई दोनों ही देखनेमें आती हैं। इन सब बातोंका विचार करके आप भी प्राचीन धर्मका पालन कौजिये। यज्ञ कौजिये, दान दौजिये तथा प्रजा एवं मित्रोंकी रक्षा कौजिये।”

अर्जुनकी बात समाप्त होनेपर भीमसेन कहने लगे—
“राजन् ! आप सब धर्मोंके ज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी कहनेकी आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार मनमें निश्चय किया कि 'न बोलूँ, न धोऊँ,' मगर अधिक दुःख होनेके कारण बोलना ही पड़ता है। आपका यह अत्यन्त मोह देखकर हमलोग चिक्कल और निबल हो रहे हैं। आप संसारकी गति और अगति दोनों जानते हैं, भविष्य और वर्तमानमें भी आपसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसी स्थितिमें भी आपको राज्यके प्रति आकृष्ट करनेका जो कारण है, उसे बता रहा हूँ; ध्यान देकर सुनें। मनुष्यको दो प्रकारकी स्वार्थिता होती है एक

शारीरिक और दूसरी मानसिक। इन दोनोंकी उत्पत्ति अग्न्याग्निप्रथित है। एकके बिना दूसरीका होना सम्भव नहीं है। कभी शारीरिक व्याधिसे मानसिक व्याधि होती है, कभी मानसिक व्याधिसे शारीरिक व्याधि। जो मनुष्य बीते हुए शारीरिक अथवा मानसिक दुःखके लिये शोक करता है, वह एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता रहता है। उसे दोनों प्रकारके अनर्थोंसे कभी छुटकारा नहीं मिलता।

“इसलिये जैसे भीष्म और द्रोणके साथ आपका युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अपने मनके साथ भी आपको सड़ना

चाहिये। उसका समय अब आ गया है। इस युद्धमें न बाणोंका काम है, न मित्र और बन्धुओंकी सहायताका। अपने आपको सड़ना है। मनको जीते बिना आपको क्या दसा होगी, मैं कह नहीं सकता। हाँ, उसे जीतकर आप अवश्य कृतार्थ हो जायेंगे। प्राणिमैत्री आवागमनपर विचार करके अपनी बुद्धिके स्थिर कीजिये और बाण-दादोंका राज्य घटाइये। सौभाग्यकी बात है कि पापी बुर्धोघन सेयकोंसहित मारा गया; अब आप अश्वमेध यज्ञ करके विधिपूर्वक दक्षिणा बीजिये। हम सब लोग आपके दास हैं।”

युधिष्ठिरद्वारा भीमको फटकार और मुनिवृत्तिकी प्रशंसा तथा अर्जुनका राजा जनकके दृष्टान्तसे उन्हें समझाना

यंशम्पायनजी कहते हैं—भीमसेनकी घात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले—“भीम ! असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशान्ति, बल, मोह, अहिमान तथा उद्वेग—इन प्रबल पापोंने तुम्हारे मनको धसीभूत कर लिया है; इसीलिये तुम्हें राज्यकी इच्छा होती है। भाई ! भोगोंकी आसक्ति छोड़ो और यन्धनमुक्त होकर शान्त एवं सुखी हो जाओ। आग कितनी ही घषकती क्यों न हो; उसमें ईंधन न डाला जाय तो वह अपने आप शान्त हो जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके पेटकी आग शान्त करो, यह अजकल बहुत यज्ञ गयी है। पहले अपने पेटको जीतो; फिर ऐसा समझा जायगा कि इस जीती हुई पृथ्वीके द्वारा तुमने कल्याणपर विजय पायी है। भीमसेन ! तुम मनुष्योंके कामभोग तथा ऐश्वर्यकी प्रशंसा करते हो; किन्तु जो भोगोंसे रहित और तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बल हैं, वे श्रद्धि-मुनि ही सर्वोत्तम पदको प्राप्त करते हैं। जो लोग पत्ते खाते हैं, पत्थरपर पीसकर या बर्तोंसे ही चमाकर खाते हैं, अथवा पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्वियोंके ही मरकपर विजय पायी है। (यहाँ तुम्हारे-जैसे धीरोंकी बीरता नहीं काम देती।) एक और सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन करनेवाला राजा है और दूसरे और पत्थर और सोनेकी एक समझनेवाला मुनि। इन दोनोंमें मुनि ही कृतार्थ है, राजा नहीं। अपने मनोरथोंके पीछे बड़े-बड़े कार्योंका आरम्भ न करो। आशा तथा ममता न रखो। इमने तुम्हें इहलोक और परलोकमें भी शोचरहित स्थान प्राप्त होगा। जिन्होंने भोगोंकी धारणा छोड़ दी है, वे कभी शोक नहीं करते। फिर तुम क्यों भोगोंकी चिन्ता कर रहे हो ? यदि

सम्पूर्ण भोगोंका परित्याग कर दो तो मिथ्यावासने छूट जाओगे। परलोकके दो मार्ग प्रसिद्ध हैं—पितृपान और देवपान। सकाम यज्ञ करनेवाले पितृपानसे जाते हैं और मोक्षके अधिकारी देवपानसे। महर्षिगण तप, ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्यायके बलपर ऐसे राज्यमें पहुँच जाते हैं, जहाँ मृत्युका प्रवेश नहीं है। राजा जनक समस्त इन्द्रोंसे रहित और जीवन्मुक्त पुरुष थे, उन्हें भीसस्वरूप आरमाका साक्षात्कार हो गया था। पूर्वकालमें उन्होंने जो उद्गार प्रकट किया था, उसे मोग इस प्रकार बताते हैं—“दूसरोंकी दृष्टिमें मेरे पास अनन्त धन है, किन्तु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला जल जाय तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। जो स्वयं इष्टारूपसे रहकर इस दुःख-प्रपञ्चको देखता है, वही अलि-वाल और वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्त्वोंका ज्ञान एवं सम्यक् बोध (निश्चय) करानेवाली युक्तिकी बुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य मित्र-मित्र प्राणियोंको एक ही परमात्मामें स्थित देखता है तथा उसीसे सबका विस्तार हुआ मानता है, उस समय यह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। बुद्धिमान और तपस्वी ही उस उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं। जो जड और अज्ञानी हैं, जिनमें शूद्र बुद्धि तथा तपका अभाव है, ऐसे लोगोंकी यहाँ पहुँच नहीं होता। वास्तवमें सब कुछ बुद्धिमें ही स्थित है।”

यों कहकर राजा युधिष्ठिर घुप हो गये, तब अर्जुनने फिर कहा—“महाराज ! जानकार लोग राजा जनक और उनकी स्त्रीका संवादरूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा जनकने भी राज्यका परित्याग करके भीष मंगेनेका निश्चय किया था; उस समय उनकी रानीने दुर्गा स्त्रीर जो कुछ कहा था, वही आपने सुना रखा है।”

“कहते हैं, एक दिन राजा जनकपर मूढ़ता सवार हुई। वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकारके रत्न तथा अग्निहोत्रका भी त्याग करके मिस्रुककी तरह मुट्ठीपर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। स्वामीको इस अवस्थामें देख रानीको बड़ा रंज हुआ, वे एकान्तमें उनके पास जाकर बोलीं—‘राजन् ! आपको मिस्रुककी भाँति मुट्ठीभर भुना हुआ जौ खाकर रहना उचित नहीं है। आपकी यह प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राजधर्मके विरुद्ध है। यह महान् राज्य छोड़कर यदि आप योड़े-से अन्नमें संतोष मानते हैं तो इतनेसे अतिथि, देवता, ऋषि और पितरोंका भरण-पोषण कैसे किया जा सकता है ? मैं तो समझती हूँ आपका यह सारा परिश्रम व्यर्थ है। आपने कर्मोंको त्यागा है; इसलिये देवता, अतिथि और पितरोंमें आपका भी परित्याग कर दिया है। आपके रहते ही आपकी माता आजसे पुत्रहीना हुई और यह अभागिनी कौसल्या भी पतिहीना। भला, कहिये तो—ये नाना प्रकारके वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर आप किसलिये संन्यासी हो रहे हैं ? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं ? आप सम्पूर्ण भूतोंके लिये प्याऊके समान थे, सभी आपके यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते थे ! इसी तरह एक समय ऐसा था, जब आप फलोंसे भरे हुए वृक्षकी भाँति सब जीवोंको भूख मिटाया करते थे; किंतु अब मुट्ठीभर अन्नके लिये स्वयं ही दूसरोंके सामने हाथ फँलायेंगे ! जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठीभर जौके लिये दूसरोंकी कृपा चाहते हैं, तो इस त्यागमें और राज्य करनेमें अन्तर ही क्या रहा ? दोनों एकन्ते ही तो हैं, फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं ? मुट्ठीभर जौकी आवश्यकता बनी ही रह गयी तो सर्वत्यागकी प्रतिज्ञा कहाँ रही ?

‘महाराज ! यदि मुझपर आपकी कृपा हो तो इस पृथ्वीका पालन कीजिये और राजमहल, शय्या, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणोंको उपयोगमें लाइये। जो बराबर दूसरोंसे दान लेता है तथा जो निरन्तर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनोंमें क्या अन्तर है ? उनमें कौन-सा श्रेष्ठ है ? इसे आप समझिये। संसारमें साधु-संतोंको अन्न देनेवाले राजाकी आवश्यकता है; यदि दान करनेवाला राजा न रहे तो मोक्ष चाहनेवाले महात्माओंका जीवन-निर्वाह कैसे हो ? अन्नसे ही प्राणकी पुष्टि होती है, इसलिये अन्न देनेवाला प्राणदाता होता है। गृहस्थ-आश्रमसे अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्थोंकी ही सहारे जीवन धारण करते हैं। जो आसक्तिरहित एवं सब प्रकारके दग्धनोंसे मुक्त है, शत्रु और मित्रमें समान भाव रखता है, वह किसी भी आश्रममें रहकर मुक्त ही है। बहुत-से लोग

तो दान लेने या पेट पालनेके लिये मूँड़ मुड़ाकर गेले वस्त्र पहन घरसे निकल जाते हैं, वे नाना प्रकारके बन्धनोंमें बंधे होनेके कारण भोगोंकी ही खोजमें डोलते-फिरते हैं। हृदयका राग आदि दोष दूर न हुआ हो तो गेरुजा वस्त्र धारण करना विडम्बनामात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्मका ढोंग रचानेवाले मयमुँड़े अपनी जीविका चलानेके लिये ही ऐसा करते हैं। जो हो, आप तो साधु-महात्माओंका पालन-पोषण करते हुए जितेन्द्रिय होकर पुण्यलोकोंपर अधिकार प्राप्त कीजिये। जो प्रतिदिन गुरूके लिये समिधा लाता है अथवा निरन्तर बहुत-सी दक्षिणाओंवाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्मपरायण कौन होगा ?

“(इस तरह रानीके समझानेसे जनकने संन्यासका विचार छोड़ दिया।) राजा जनक संसारमें तत्त्ववेत्ताके रूपमें प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उन्हींकी भाँति आप भी मोहमें न पड़िये। यदि हमलोग सर्वदा दान और तपमें तत्पर रहकर अपने धर्मका अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणोंसे सम्पन्न रहेंगे, कान-श्रोधादि दोषोंको त्याग देंगे तथा अच्छी तरहसे दान देते हुए प्रजापालनमें लगे रहेंगे तो गुरु और वृद्धजनोंकी सेवा करते हुए हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मणसेवी और सत्यनापी होकर देवता, अतिथि और समस्त प्राणियोंकी विधिवत् सेवा करते रहनेसे भी हमें अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जायगा।”

राजा युधिष्ठिरने कहा—भैया ! मैं धर्मका प्रतिपादन करनेवाले और पर तथा अपर ब्रह्मका निरूपण करनेवाले दोनों प्रकारके शास्त्रको जानता हूँ तथा मुझे कर्मानुष्ठान और कर्मत्याग दोनोंका प्रतिपादन करनेवाले वेद-वाक्योंका भी ज्ञान है। इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करनेवाले वाक्योंका भी मैंने युक्तिपूर्वक विचार किया है और उन वाक्योंका जो तात्पर्य है, उसे भी मैं विधिवत् जानता हूँ। तुम तो केवल शास्त्रविद्याके ही जानकार हो और बीरोंका धर्म पालन करते हो। शास्त्रके यथार्थ मर्मको तुम किसी प्रकार नहीं समझ सकते। जो लोग शास्त्रके सूक्ष्म रहस्यको जानते हैं और धर्मका निश्चय करनेमें कुशल हैं, तुम्हारी तरह तो वे भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते। तथापि भ्रातृ-स्नेहवश तुमने जो कुछ कहा है, वह न्यायसंगत और उचित ही है, उससे मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। युद्धके धर्मोंमें और संग्राम करनेकी कुशलतामें तो तुम्हारे समान तीनों लोकोंमें भी कोई नहीं है। किंतु जिन महानुभावोंकी बुद्धि परमार्थमें लगी हुई है, उनका विचार है कि तप और त्याग दोनों ही परस्पर एक-दूसरेसे श्रेष्ठ हैं। अर्जुन ! तुम जो ऐसा समझते हो कि धनसे बढ़कर कोई

“कहते हैं, एक दिन राजा जनकपर मृदुता सवार हुई। वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकारके रत्न तथा अग्निहोत्रका भी त्याग करके भिक्षुककी तरह मुट्ठीपर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। स्वामीको इस अवस्थामें देख रानीको बड़ा रंज हुआ, वे एकान्तमें उनके पास जाकर बोलीं— ‘राजन् ! आपकी भिक्षुककी भाँति मुट्ठीभर भुना हुआ जौ खाकर रहना उचित नहीं है। आपकी यह प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राजधर्मके विरुद्ध है। यह महान् राज्य छोड़कर यदि आप थोड़े-से अन्नमें संतोष मानते हैं तो इतनेसे अतिथि, देवता, ऋषि और पितरोंका भरण-पोषण कैसे किया जा सकता है ? मैं तो समझती हूँ आपका यह सारा परिश्रम व्यर्थ है। आपने कर्मोंको त्यागा है; इसलिये देवता, अतिथि और पितरोंने आपका भी परित्याग कर दिया है। आपके रहते ही आपकी माता आजसे पुत्रहीना हुई और यह अभागिनी कौसल्या भी पतिहीना। भला, कहिये तो—ये नाना प्रकारके वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर आप किसलिये संन्यासी हो रहे हैं ? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं ? आप सम्पूर्ण भूतोंके लिये प्याऊके समान थे, सभी आपके यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते थे। इसी तरह एक समय ऐसा था, जब आप फलोंसे भरे हुए वृक्षकी भाँति सब जीवोंकी भूख मिटाया करते थे; किंतु अब मुट्ठीभर अन्नके लिये स्वयं ही दूसरोंके सामने हाथ फँलायेंगे ! जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठीभर जौके लिये दूसरोंकी कृपा चाहते हैं, तो इस त्यागमें और राज्य करनेमें अन्तर ही क्या रहा ? दोनों एक-से ही तो हैं, फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं ? मुट्ठीभर जौकी आवश्यकता बनी ही रह गयी तो सर्वत्यागकी प्रतिज्ञा कहाँ रही ?

‘महाराज ! यदि मुझपर आपकी कृपा हो तो इस पृथ्वीका पालन कीजिये और राजमहल, शय्या, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणोंको उपयोगमें लाइये। जो बराबर दूसरोंसे दान लेता है तथा जो निरन्तर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनोंमें क्या अन्तर है ? उनमें कौन-सा श्रेष्ठ है ? इसे आप समझिये। संसारमें साधु-संतोंको अन्न देनेवाले राजाकी आवश्यकता है; यदि दान करनेवाला राजा न रहे तो मोक्ष चाहनेवाले महात्माओंका जीवन-निर्वाह कैसे हो ? अन्नसे ही प्राणकी पुष्टि होती है, इसलिये अन्न देनेवाला प्राणदाता होता है। गृहस्थ-आश्रमसे अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्थोंके ही सहारे जीवन धारण करते हैं। जो आसक्तिरहित एवं सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त है, शत्रु और मित्रमें समान भाव रखता है, वह किसी भी आश्रममें रहकर मुक्त ही है। बहुत-से लोग

तो दान लेने या पेट पालनेके लिये मूँड़ मुड़ाकर गेरूए वस्त्र पहन घरसे निकल जाते हैं, वे नाना प्रकारके बन्धनोंमें बंधे होनेके कारण भोगोंकी ही खोजमें डोलते-फिरते हैं। हृदयका राग आदि दोष दूर न हुआ हो तो गेरूआ वस्त्र धारण करना विडम्बनामात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्मका ढोंग रचानेवाले मयमुँड़े अपनी जीविका चलानेके लिये ही ऐसा करते हैं। जो हो, आप तो साधु-महात्माओंका पालन-पोषण करते हुए जितेन्द्रिय होकर पुण्यलोकोंपर अधिकार प्राप्त कीजिये। जो प्रतिदिन गुरुके लिये समिधा लाता है अथवा निरन्तर बहुत-सी दक्षिणाओंवाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्मपरायण कौन होगा ?’

“(इस तरह रानीके समझानेसे जनकने संन्यासका विचार छोड़ दिया।) राजा जनक संसारमें तत्त्ववेत्ताके रूपमें प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उन्हींकी भाँति आप भी मोहमें न पड़िये। यदि हमलोग सर्वदा दान और तपमें तत्पर रहकर अपने धर्मका अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणोंसे सम्पन्न रहेंगे, काम-क्रोधादि दोषोंको त्याग देंगे तथा अच्छी तरहसे दान देते हुए प्रजापालनमें लगे रहेंगे तो गुरु और बृद्धजनोंकी सेवा करते हुए हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मणसेव्री और सत्यभाषी होकर देवता, अतिथि और समस्त प्राणियोंकी विधिवत सेवा करते रहनेसे भी हमें अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जायगा।”

राजा युधिष्ठिरने कहा—भैया ! मैं धर्मका प्रतिपादन करनेवाले और पर तथा अपर ब्रह्मका निरूपण करनेवाले दोनों प्रकारके शास्त्रको जानता हूँ तथा मुझे कर्मानुष्ठान और कर्मत्याग दोनोंका प्रतिपादन करनेवाले वेद-वाक्योंका भी ज्ञान है। इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करनेवाले वाक्योंका भी मैंने युक्तिपूर्वक विचार किया है और उन वाक्योंका जो तात्पर्य है, उसे भी मैं विधिपूर्वक जानता हूँ। तुम तो केवल शास्त्रविद्याके ही जानकार हो और वीरोंका धर्म पालन करते हो। शास्त्रके यथार्थ मर्मको तुम किसी प्रकार नहीं समझ सकते। जो लोग शास्त्रके सूक्ष्म रहस्यको जानते हैं और धर्मका निश्चय करनेमें कुशल हैं, तुम्हारी तरह तो वे भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते। तथापि भ्रातृ-स्नेहवश तुमने जो कुछ कहा है, वह न्यायसंगत और उचित ही है, उससे मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। युद्धके धर्मोंमें और संग्राम करनेकी कुशलतामें तो तुम्हारे समान तीनों लोकोंमें भी कोई नहीं है। किंतु जिन महानुभावोंकी बुद्धि परमार्थमें लगी हुई है, उनका विचार है कि तप और त्याग दोनों ही परस्पर एक-दूसरेसे श्रेष्ठ हैं। अर्जुन ! तुम जो ऐसा समझते हो कि धनसे बढ़कर कोई

घोज ही नहीं है, सो ठीक नहीं है; वास्तवमें धनका कोई महत्त्व नहीं है, यह बात जिस तरह समझमें आ जाय वही सुनहें बला रहा हूँ। इस लोकमें तप और स्वाध्यायमें सगे हुए भी अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखायी देते हैं। वे तपस्वी ऋषि ही हैं, जो अन्तमें सनातन लोकोंको प्राप्त करते हैं। अनेको ऐसे भी अजातशत्रु धर्मवान् बनवासी हैं, जो वनमें रहकर स्वाध्याय करते हुए स्वर्गलोक प्राप्त कर लेते हैं। कोई भद्रपुरुष इन्द्रियोंको उनके विषयोसे रोककर अविवेकजनित अज्ञानसे छूटकर देवयानमार्गके द्वारा त्यागियोंका लोक प्राप्त कर लेते हैं और कोई तेजोमय दक्षिण भागसे पुण्यलोकोंको प्राप्त होते हैं। किन्तु मोक्षमार्गी पुरुषोंकी गति तो अनिर्वच-

नीय है। अतः योग ही सब साधनोंमें प्रधान माना गया है। पर उसका स्वरूप जानना बहुत कठिन है। विद्वान्प्राण सारासार वस्तुका विवेक करनेकी इच्छासे निरन्तर शास्त्रका विचार करते रहते हैं और वे अपने स्वरूपमें स्थित हुए-यहाँ मुक्त हो जाते हैं। वह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है, नेत्रसे उसे देखा नहीं जा सकता और वाणीसे कहा नहीं जा सकता। जो बड़े मुक्तिकुशल विद्वान् हैं, वे भी इस आत्मतत्त्वके विषयमें चक्करमें पड़ जाते हैं, साधारण जीवोंकी तो बात ही क्या है? इसी प्रकार बड़े-बड़े बुद्धिमान्, श्रोत्रिय और शास्त्रज्ञोंके लिये भी यह अत्यन्त दुर्बिज्ञेय है। किन्तु अर्जुन! तत्त्वज्ञान तो तप, ज्ञान और त्यागसे उस नित्य महान् सुखको प्राप्त कर लेते हैं।

महर्षि देवस्थान और अर्जुनका राजा युधिष्ठिरको समझाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! युधिष्ठिरकी बात प्रती होनेपर वहाँ बैठे हुए देवस्थान नामके एक तपस्वीने ये वृत्तवृत्त वचन कहने आरम्भ किये, 'अजातशत्रो! आपने धर्मानुसार यह सारी पृथ्वी जीती है। इसे आपको ध्यय ही नहीं त्याग देना चाहिये। राजन्! ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास—ये चारों आश्रम ब्रह्मको प्राप्त करनेकी चार सीढ़ियाँ हैं और इनका वेदमें प्रतिपादन किया गया है। अतः आपको इन्हें क्रमसे ही पार करना चाहिये। आप अभी बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ कीजिये। स्वाध्याय यज्ञ तो ऋषिलोग किया करते हैं और कोई-कोई ज्ञानयज्ञ भी करते हैं। गृहस्थ तो यज्ञके लिये ही सम्पूर्ण धनका संचय करते हैं। वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अपोय्य कार्योंके लिये उसका दुरुपयोग करते हैं तो भ्रूणहत्या-जैसे दोषके भागी बनते हैं। ब्रह्मज्ञाने यज्ञके लिये ही धनकी रचना की है और यज्ञके लिये ही पुरुषको उसका रक्षक नियुक्त किया है। अतः यज्ञके लिये सारा धन खर्च कर देना चाहिये। उसके बाद शोध्र ही कामनाकी सिद्धि हो जाती है। राजन्! अविशितके पुत्र राजा भरतने बड़ी धूम-धामसे इन्द्रका यजन किया था। उनके यज्ञमें लक्ष्मीदेवी स्वयं पधारी थीं और उनके सभी यज्ञपात्र सुवर्णके थे। राजा हरिरचन्द्रका नाम भी आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी बड़ा धन खर्च करके इन्द्रका यजन किया था, उससे वे पुण्योंके भागी हुए और शोकरहित हो गये। इसलिये सारा धन यज्ञमें ही सगा देना चाहिये। 'राजन्! मनुष्यके मनमें संतोष होना स्वर्गसे भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोषसे बढ़कर संसारमें कोई बात नहीं है। उसको ठीक-ठीक स्थिति तभी

होती है जब मनुष्य कुछ-आ जैसे अपने अज्ञानोंको सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी सब कामनाओंको सब ओरसे समेट लेता है। उस समय तुरन्त ही आत्मज्योतिःस्वरूप परमात्माका अपने अन्तःकरणमें ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य किसीसे भी भय नहीं मानता तो उससे भी किसीको कोई डर नहीं रहता। वह काम और द्वेषको जीत लेता है तथा आत्माका साक्षात्कार कर लेता है।

'कोई लोग तो शान्तिको प्रशंसा करते हैं और कोई उद्योगके गुण गाते हैं। कोई इनमेंसे प्रत्येकको ही अच्छा बताते हैं और कोई एक साथ ही दोनोंको। कोई यज्ञको ही अच्छा बताते हैं, कोई संन्यासको और कोई दानको। कोई सब कुछ छोड़कर चुपचाप भगवान्के ध्यानमें मग्न रहते हैं और कोई राज्य पाकर प्रजाका पालन करते रहना ही अच्छा समझते हैं। किन्तु इन सब बातोंपर विचार करके बुद्धिमानोंने तो यही निश्चय किया है कि किसीसे द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सबपर दया रखना, इन्द्रियोंका दमन करना, अपनी ही स्वर्गसे पुत्रोत्पत्ति करना तथा मृदुता, लज्जा और अचञ्चलता—ये ही प्रधान धर्म हैं और ऐसा ही स्वायम्भुव मनुने भी कहा है।

'राजन्! आप भी प्रयत्नपूर्वक इसी धर्मका पालन करें। भूषितिका यह धर्म है कि इन्द्रियोंको सर्वदा अपने अधीन रखले, प्रिय और अप्रियमें समान रहे, यज्ञानुष्ठानसे जो बचे उसी अन्नका सेवन करे, शास्त्रके रहस्यको जाने, दुष्टोंका दमन करता रहे, साधुओंकी रक्षा करे, प्रजाको धर्ममार्गपर से जाकर उसके साथ धर्मानुसार व्यवहार करे और अन्तमें पुत्रको राजतन्त्रभी सौंपकर वनमें चला जाय। वहाँ भी वनके

फल-भूलादिसे निर्वाह करता हुआ आलस्य त्यागकर शास्त्रोक्त कर्मोंका ही विधिपूर्वक आचरण करे। जो राजा इस प्रकार यत्न करता है, वही धर्मको जाननेवाला है। उसके इहलोक वीर परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इस प्रकार जो धर्मका अनुसरण करते थे, सत्य, दान और तपमें लगे रहते थे, दया आदि गुणोंसे सम्पन्न थे, काम-क्रोधादि दोषोंसे दूर रहते थे, सर्वदा प्रजापालनमें तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मोंका आचरण करते थे और गौ एवं ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये युद्ध वानते थे, ऐसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य और अनेकों राजापरियों भी इसी धर्मका आश्रय लिया था तथा निरन्तर सावधान रहकर अपने पवित्र कर्मोंका आचरण करनेसे स्वर्ग प्राप्त किया था।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार जब देवस्थान मुनिका भाषण समाप्त हुआ तो अर्जुनने अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिरसे, जो अभीतक बहुत उदास थे, फिर कहा, 'राजन् ! आप धर्मज्ञ हैं, आपने क्षत्रिय-धर्मके

अनुसार ही यह दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है। फिर आप इतने दुखी क्यों हैं ? महाराज ! आप क्षात्र-धर्मका विचार कीजिये। क्षत्रियके लिये तो धर्मयुद्धमें मर जाना अनेकों यत्नोंसे भी बड़कर है। तप और त्याग तो ब्राह्मणोंके धर्म हैं। दूसरेके धनसे अपना निर्वाह करना यह क्षत्रियका धर्म नहीं है। आप तो सब धर्मोंको जानते हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान हैं, कर्मकुशल हैं और संसारमें आगे-पीछेकी सब बातोंपर दृष्टि रखनेवाले हैं तथा आपने क्षात्र-धर्मके अनुसार शत्रुओंको परास्त करके यह निष्कण्टक राज्य प्राप्त किया है। अतः अब मनको वशमें रखकर आप यज्ञ-दानादिका अनुष्ठान कीजिये। देखिये, इन्द्र कश्यप ब्राह्मणका पुत्र था, किन्तु अपने कर्मसे वह क्षत्रिय हो गया था। उसने पापपरायण निन्यानवे जातियोंका वध किया था। लोकमें उसके इस कर्मको प्रशंसनीय ही माना गया है। अतः जो कुछ हो चुका है, उसके लिये आप शोक न करें। वे सब वीर तो क्षात्र-धर्मके अनु-नार शस्त्रोंसे मारे जाकर परम गतिको ही प्राप्त हुए हैं।

महर्षि व्यासका शङ्ख-लिखित और राजा हयग्रीवके दृष्टान्त देकर युधिष्ठिरको प्रजापालनके लिए उत्साहित करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अर्जुनके इस प्रकार समझानेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने कोई उत्तर नहीं



विया। तब महर्षि व्यास कहने लगे—'सौम्य ! अर्जुनका कथन बहुत ठीक है। गृहस्थ-धर्म बहुत उत्तम है और शास्त्रोंमें उसका वर्णन किया गया है। धर्मज्ञ ! तुम शास्त्रानुसार स्वधर्मका ही आचरण करो। तुम्हारे लिये घर छोड़कर वनमें जानेका विधान नहीं है। देवी, देवता, पितर, अतिथि और सेवक इन सबका निर्वाह गृहस्थके द्वारा ही होता है। अतः तुम इन सबका पालन करो। पशु-पक्षी और समस्त प्राणियोंका पेट भी गृहस्थोंके कारण ही भरता है, इसलिये गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें वेदका पूरा ज्ञान है और तुमने तपस्या भी बहुत बड़ी की है। इसलिये अपने इस पैतृक राज्यका भार उठातेमें तुम सब प्रकार समर्थ हो। राजन् ! तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इन्द्रियोंका संयम, ध्यान, एकान्तसेवन, संतोष और शास्त्रज्ञान—ये सब बातें तो ब्राह्मणोंकी सिद्धि देनेवाली हैं। क्षत्रियोंके धर्म यद्यपि तुम जानते ही हो तो भी मैं उन्हें सुनाता हूँ—यज्ञ, विद्या-भ्रमण, शत्रुओंपर चढ़ाई करना, राजतक्ष्मीकी प्राप्तिसे कभी संतुष्ट न होना, दण्ड देना, दबदबा रखना, प्रजाका पालन करना, समस्त वेदोंको ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, द्रव्योपार्जन और सुपात्रकी दान देना—क्षत्रियके ये सब कर्म उसे इहलोक वीर परलोक दोनोंमें सफलता देनेवाले हैं। इनमें भी दण्ड धारण करना उसका सबसे प्रधान धर्म है। इसके लिये उसमें सर्वदा दल

रहना चाहिये; क्योंकि दण्डविधान बलके द्वारा ही हो सकता है। राजन् ! क्षत्रियोंको तो इन्हीं धर्मके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमने सुना है कि राजर्षि सुद्युम्नने दण्ड-धारणके द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस विषयमें यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है; तुम ध्यान देकर सुनो।

“शङ्ख और लिखित नामक दो भाई थे। वे बड़े ही तपस्वी थे। बाहुदा नदीके तीरपर उनके अलग-अलग आश्रम थे, जो बड़े ही रमणीय और सर्वदा फल-मुष्पादिते सदे रहते थे। एक बार लिखित शङ्खके आश्रमपर आये। दंबयश उस समय शङ्ख बाहर गये हुए थे। लिखितने भाईकी अनुपस्थितिमें वहाँके वृक्षांसे बहुतसे फल हुए फल तोड़ लिये और वे उन्हें वहाँ बँटकर खाने लगे। इतनेहीमें शङ्ख वहाँ आ गये। उन्होंने लिखितको फल खाते देखकर कहा, ‘भैया ! तुम्हें ये फल कहाँसे मिले।’ इसपर लिखितने अपने बड़े भाईके पास जाकर उनसे हँसते-हँसते कहा, ‘ये तो मैंने



इस सामनेवाले वृक्षसे ही तोड़े हैं।’ इसपर शङ्खने कहा, ‘तुमने मुझसे बिना पूछे स्वयं ही फल तोड़कर तो चोरी की है, इसलिये तुम राजाके पास जाओ और उसे अपना सब कर्म सुनाकर बहो कि ‘राजन् ! बिना दिये दूसरेकी चीज लेकर मैंने चोरीका अपराध किया है, इसलिये यह सब जानकर आप अपना धर्मपालन कीजिये और तुरंत ही मुझे वह दण्ड दीजिये जो चोरको दिया जाता है।’

“तब भाईकी आज्ञा शिरपर धारणकर लिखित राजा सुद्युम्नके पास गये और उससे बोले, ‘राजन् ! मैंने बिना आज्ञा लिये अपने बड़े भाईके फल खा लिये हैं, इसलिये आप मुझे दण्ड दीजिये।’

“सुद्युम्नने कहा, ‘विप्रवर ! यदि आप दण्ड देनेमें राजाकी प्रमाण मानते हैं तो क्षमा करनेका भी उसकी अधिकार है ही। अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ। इसके सिवा मेरे योग्य कोई और सेवा ही तो उनके लिये मुझे आज्ञा कीजिये। मैं उसे पालन करनेका प्रयत्न करूँगा।’

“परंतु राजाके बहुत प्राथना करनेपर भी लिखितने दण्डके लिये ही आग्रह किया। उसके सिवा और किसी प्रकारकी बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। तब राजाने घोरीका दण्ड देते हुए उनके दोनों हाथ कटवा दिये। इस प्रकार दण्ड पाकर वे शङ्खके पास आये और अत्यन्त दोन होकर उनसे प्राथना की कि ‘मुझे दण्ड प्राप्त हो गया है, अब आप मुझे मन्दमतिका क्षमा करें।’

“शङ्खने कहा, ‘भैया ! मैं तुमपर क्रुपित नहीं हूँ। तुम तो धर्मको जाननेवाले हो। तुमसे धर्मका उत्लङ्घन हो गया था। उसीका तुम्हें दण्ड मिता है। अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदीके तटपर जाकर विधिवन् देवता और पितरोंका तर्पण करो। भविष्यमें कभी अघर्ममें मन मत ले जाना।’

“शङ्खकी बात सुनकर लिखितने बाहुदाके पुनीत जलमें स्नान किया और फिर वे ज्यों ही तर्पण करनेको तैयार हुए कि उनकी भुजाओंमेंसे कमलके समान दो हाथ प्रकट हो गये। इससे उन्हें छड़ा हो आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने भाईको जाकर वे हाथ दिखाये। शङ्खने कहा, ‘भाई ! तुम शङ्का न करो। मैंने अपने तपके प्रभावसे ये हाथ उत्पन्न कर दिये हैं।’ इसपर लिखितने पूछा, ‘विप्रवर ! यदि आपके तपका ऐसा प्रभाव है तो आपने पहले ही मेरी शुद्धि क्यों नहीं कर दी ?’ शङ्ख बोले, ‘यह ठीक है; परंतु तुम्हें दण्ड देनेका अधिकार मुझे नहीं है; यह तो राजाका ही काम है। इससे राजाकी भी शुद्धि हुई है और पितरोंके सहित तुम भी पवित्र हो गये हो।’ इसी प्रकार प्रचेताओंके पुत्र दत्तने भी उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। प्रजाओका पालन करना—यही क्षत्रियोंका मुख्य धर्म है। इसलिये राजन् ! आप शोक त्यागिये। अपने भाई अर्जुनकी हितकारिणी बातपर ध्यान दीजिये। क्षत्रियोंका प्रधान कर्तव्य तो दण्ड धारण करना ही है, मूंड मूंडाना उनका काम नहीं है।

“तब ! वनमें रहते समय तुम्हारे घोर-शौर भाइयोंने जो मनोरथ किये थे उन्हें अब सफल होने दो। तुम नहुषपुत्र यथातिके समान पृथ्वीका पालन करो। अपने भाइयोंके साथ

धर्म, अर्घ और कामका भोग करो। पीछे प्रसन्नतासे वनमें चले जाना। पहले अतिथियों, पितरों और देवताओंके ऋणसे उच्छ्रय हो लो, इसके बाद यह सब करना। अभी तो सर्वमेघ और अश्वमेघ यज्ञोंका अनुष्ठान करो। यदि तुम अपने भाइयोंके साथ बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ करोगे तो तुम्हें अतुलित यज्ञ प्राप्त होगा। राजन् ! मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उसपर ध्यान दो। वंसा करनेसे तुम अपने धर्मसे नहीं गिरोगे। देखो, जो राजा करका छठा भाग लेकर भी राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता वह अपनी प्रजाके चतुर्थांश पापका भागी बनता है। यदि राजा धर्मशास्त्रका उल्लङ्घन करता है तो पतित हो जाता है और यदि उसका अनुसरण करता रहता है तो निर्भय रहता है। यदि काम-क्रोधको छोड़कर वह पिताके समान सारी प्रजाके प्रति समदृष्टि रखे तो इस शास्त्रोक्त बुद्धिका आश्रय लेनेसे उसे किसी प्रकार पापका संसर्ग नहीं होता। शत्रुओंको अपने तेज और बुद्धिके बलसे काबूमें रखना चाहिये। पापियोंके साथ कभी मेल नहीं करनी चाहिये तथा अपने राज्यमें पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान कराना चाहिये। शूरवीर, श्रेष्ठ, सत्कर्म करनेवाले विद्वान्, वेदपाठी, शास्त्रज्ञ और धनवानोंकी विशेष रक्षा करनी चाहिये। जो बहुश्रुत हों उन्हें धर्मकृत्योंमें नियुक्त करना चाहिये तथा एक व्यक्तिमें, चाहे वह कौसा ही गुणवान् हो, कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता, विनयहीन है, माननी है, मान्य पुरुषोंका सत्कार नहीं करता और गुणोंमें भी दोषदृष्टि करता है, वह पापी हो जाता है

और लोकमें उसे दुर्दान्त (क्रूर) कहा जाता है। कई बार प्रजा लोग जो राजाको ओरसे सुरक्षित न होनेके कारण अनावृष्टि आदि दैवी आपत्तियोंसे नष्ट हो जाते हैं तथा चौरोंके उपद्रवादिते दुःख पाते हैं, उसमें राजा ही दोषका भागी होता है। किंतु पूरे-पूरे विचार और नीतिके साथ सब प्रकार प्रयत्न करनेपर भी यदि सफलता न मिले तो उस अवस्थामें राजाको कोई पाप नहीं होता।

“राजन् ! इस विषयमें मैं तुम्हें राजर्षि हयग्रीवका प्रसंग सुनाता हूँ। वह बड़ा शूरवीर और पवित्र कर्म करनेवाला था। उसने संग्राममें अपने शत्रुओंको परास्त कर दिया था। परन्तु पीछे निःसहाय हो जानेपर शत्रुओंने उसे हराकर मार डाला। वह शत्रुओंका निग्रह और प्रजाका पालन करनेमें बड़ा ही कुशल था। इससे उसे बड़ी कोर्ति भी मिली थी। उसने विचारपूर्वक न्यायके अनुसार अपने राज्यका पालन किया, अहंकारको पास नहीं आने दिया और अनेकों यज्ञोंका अनुष्ठान किया। इस प्रकार सम्पूर्ण लोकोंको अपने सुयशसे व्याप्त करके वह महात्मा स्वर्गमें सुख भोग रहा है। उसने यज्ञादिके अनुष्ठानसे दैवी और दण्डनीतिसे मानुषी सिद्धि प्राप्त की थी तथा धर्मशास्त्रके अनुसार प्रजाका पालन किया था। वह बड़ा विद्वान्, त्यागी, श्रद्धालु और कृतज्ञ था। इस लोकमें उसने अनेकों पुण्यकर्म किये और फिर देह त्यागकर उन पुण्यलोकोंको प्राप्त किया जो बड़े-बड़े मेधावी, विद्वान्, माननीय और प्रयागादि तीर्थस्थानोंमें शरीर छोड़नेवालोंको मिलते हैं।”

व्यासजीका युधिष्ठिरसे कालकी महिमा कहना तथा युधिष्ठिरका अर्जुनके प्रति

पुनः अपना शोक प्रकट करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! व्यासजीकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, ‘भगवन् ! इस पृथ्वीके राज्य और तरह-तरहके भोगोंसे मेरे मनको प्रसन्नता नहीं है, मुझे तो यह शोक खाये जा रहा है। जिनके पति और पुत्र नष्ट हो गये हैं ऐसी इन अबलाओंका विलाप सुनकर मुझे तनिक भी चैन नहीं है।’

राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर वेदके पारगामी श्रीव्यासजीने कहा—‘राजन् ! जो लोग मारे गये हैं वे तो अब किसी भी कर्म या यज्ञादिते मिल नहीं सकते और न कोई ऐसा पुरुष ही है जो उन्हें लाकर दे दे। बुद्धि या शास्त्राध्ययनके द्वारा असमय ही किसी विशेष वस्तुको पा लेना

मनुष्यके वशकी बात नहीं है। कभी-कभी तो भूख मनुष्यको भी उत्तम वस्तुकी प्राप्ति हो जाती है। वास्तवमें कार्यको सिद्धिमें कालहीकी प्रधानता है। शिल्प, मन्त्र और ओषधियाँ भी दुर्भाग्यके समय फल नहीं देती। समयकी अनुकूलता होनेपर जब सौभाग्यका उदय होता है तो वे ही सफलता और वृद्धिकी निमित्त बन जाती हैं। समय आनेपर ही मेघ जल बरसाते हैं, बिना समयके वृक्षोंमें फल-फूल भी नहीं लगते तथा जबतक अनुकूल समय नहीं आता तबतक पक्षी, सर्प, मृग, हाथी और हरिणोंमें कामोन्माद नहीं आता, त्त्रियाँ गर्भ धारण नहीं करती; जाड़ा, गर्मी और वर्षा ऋतुएँ नहीं आती। किसोका जन्म या मरण नहीं होता, बातक

बोलना आरम्भ नहीं करता, मनुष्यपर यौवन नहीं आता और बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार सूर्यके उदय और अस्त, चन्द्रमाके वृद्धि और ह्रास तथा समुद्रके उतार-चढ़ाव भी बिना अनुकूल समय आये नहीं होते। राजन् ! इस विषयमें राजा सेनजित्ने जो कुछ कहा था वह प्राचीन उपदेश में तुम्हें सुनाता है।

“राजाने कहा था—‘यह दुःसह कासचक्र सभी मनुष्योंपर अपना प्रभाव डालता है। पृथ्वीके सभी पदार्थ समय आनेपर जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। धन, स्त्री, पुत्र अथवा पिताके नष्ट हो जानेपर पुरुष ‘हाय ! कैसा दुःख है’ ऐसा सोचकर ही फिर उस दुःखकी निम्नतिका उपाय करता है। किन्तु तुम भूल बचकर शोक क्यों करते हो ? जो शोकरूप ही वे उनके लिये शोक क्या करना। तुम्हारे दुःख माननेसे तो दुःखोंकी और भय माननेसे प्रयोंकी वृद्धि ही होगी। न तो यह शरीर मेरा है और न सारी पृथ्वी ही मेरी है। यह जंती मेरी है बंसी ही और सबकी भी है। ऐसी वृद्धि रखनेसे जोब कभी मोहमें नहीं फँसता। शोकके हजारों स्थान हैं और हृषिके भी संकड़ों अवसर हैं। किन्तु उनका प्रभाव रोज-रोज मूर्खोंपर ही पड़ता है, विद्वानोंपर नहीं। संसारमें तो केवल दुःख ही है, सुख तो है ही नहीं; इसलिये लोगोंकी दुःखकी ही उपलब्धि होती है। यहाँ सुखके पीछे दुःख और दुःखके पीछे सुख लगा ही रहता है। सुखका अन्त तो दुःखमें ही होता है। कभी-कभी दुःखसे भी सुखकी प्राप्ति हो जाती है; इसलिये जिसे नित्यसुखकी इच्छा हो वह सुख-दुःख दोनोंहीको त्याग दे। सुख या दुःख अथवा प्रिय या अप्रिय जो कुछ प्राप्त हो उसे हृदयमें अबसाद न साकर प्रसन्नतासे सहन करे। भाई ! अपने स्त्री और पुत्रोंके प्रति अनुकूल आचरणमें योद्धी-सी भी कभी कर दो, फिर तुम्हें मान्दुम हो जायगा कि कौन किस हेतुसे किसका किस प्रकार सम्बन्धो है।’

“मुग्धिष्ठिर ! यह सुख-दुःखके मर्मको जाननेवाले परमधर्मत महामति सेनजित्का कथन है। जिस पुरुषकी जो दुःख सता रहा है उससे उसे कभी शान्ति मिलनेवाली नहीं है। दुःखोंका अन्त कभी नहीं आता। एकके पीछे दूसरा दुःख पैदा होता ही रहता है। सुख-दुःख, उत्पत्ति-नाश, साम-हानि और जीवन-मरण—ये क्रमशः आते ही रहते हैं। अतः घोर पुरुषोंको इनके कारण हर्ष या शोक नहीं करना चाहिये। राजाओंका योग तो मुझकी बीजा सेना, मुझ करना, रश्मन्तिका ठीक-ठीक व्यवहार करना तथा यत्नमें दक्षिणा और धन दान देना ही है। इन्हेंसे उनकी शृद्धि होती है। जो राजा वृद्धिमानोसे न्यायपूर्वक राज्यशासन

करता है, अहंकार त्यागकर यमानुष्ठान करता है, सब प्रजाओंको धर्मके अनुसार चलाता है, मुझमें विजय पाकर राज्यकी रक्षा करता है, सोमयाग करते हुए प्रजाका पालन करता है, मुक्तिपूर्वक रश्मन्तिका करता है, वेद-शास्त्रोंका अच्छी तरह अभ्यास करता है और चारों कर्णोंको अपने-अपने धर्ममें स्थित रखता है, वह शृद्धिचित्त होकर अन्तमें स्वर्ग-मुल भोगता है तथा स्वर्गस्थ हो जानेपर भी जिसके आचरणकी पुरवासी, देवावासी और मन्त्रोत्तोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजाको षेष्ठ समझना चाहिये।”

व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर राजा मुग्धिष्ठिरने अर्जुनसे कहा—“भैया ! तुम भी समझते हो कि धनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तथा निर्धनको स्वर्ग, सुख और अर्थकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती—यह ठीक नहीं है। अनेकों मुनियोंने तपस्यामें लगे रहकर ही सनातन सौकोंको प्राप्त किया है। जो धर्मप्राण पुरुष बहुधर्म-आश्रममें रहकर वेदाध्ययनद्वारा ऋषियोंकी सम्प्रदाय-परम्पराकी रक्षा करते रहते हैं, देवगण उन्हें ही ‘बाह्यण’ कहते हैं। जो लोग स्वाध्यायनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ या धर्मनिष्ठ हैं उन्हींको तुम ऋषि समझो। ध्यानप्रस्थिके कहनेसे तो हमें यह बात मान्दुम हुई है कि राज्यके सब काम भी ज्ञाननिष्ठोंके ही हाथमें रखे। अज, पुनि, सिकत, अरण और केतु नामके ऋषियोंने तो स्वाध्यायके द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त कर लिया था। दान, अभ्ययन, धर्म और निग्रह—ये सभी कर्म बहुत कठिन हैं। इन वेदोक्त कर्मोंका आश्रय लेकर लोग दक्षिणायनमार्गसे स्वर्गलोकेमें जाते हैं; किन्तु जो नियमके अनुसार उत्तरमार्गपर वृष्टि रखता है, उसे योगियोंको प्राप्त होनेवाले सनातन सौकोंकी उपलब्धि होती है। प्राचीन कालके विद्वान् इन दोनोंमेंसे उत्तरमार्गको ही प्रशंसा करते हैं। यास्तवमें संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोषसे बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिन पुरुषोंने क्रोध और हर्षको अच्छी तरह बरामें कर लिया है, उन्हींको वह उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रसंगमें राजा ययातिभी कही हुई यह गाथा प्रसिद्ध है, जिसपर ध्यान देनेसे पुरुष, कष्टाज जैसे अपने अङ्गोंको सिकोड़ सेता है उसी प्रकार अपनी सब वासनाओंको समेट सेता है।

“राजा ययातिने कहा था—‘जब यह पुरुष किसीसे नहीं डरता और इससे भी किसीको भय नहीं रहता तथा इसे किसी वस्तुको इच्छा या किसीसे द्वेष भी नहीं रहता, उस समय यह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। जब यह कर्म, मन और वाणोसे सभी जीवोंके प्रति दुर्भावनाका त्याग कर देता है तो इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। जिसके मान और मोह ध्व

गये हैं और जिसने बहुत पुरुषोंका सङ्ग करना छोड़ दिया है, उस आत्मज महात्माके लिये मोक्ष सुलभ हो जाता है।'

“अर्जुन ! मैं तो साफ देखता हूँ कि जो मनुष्य धनके पीछे पड़ा हुआ है उसके द्वारा त्याज्य कर्मोंका छूटना बड़ा ही कठिन है। साधुता भी उसके लिये दुर्लभ ही है। शोक और भयसे रहित होनेपर भी जो पुरुष सदाचारसे डिगा हुआ है, उसे धनकी थोड़ी-सी तृष्णा भी हो तो वह दूसरोंसे ऐसा बँर ठान लेता है कि उसे पापकी भी कोई परवा नहीं होती। ब्रह्माने तो यज्ञके लिये ही धन उत्पन्न किया है और यज्ञकी रक्षाके लिये ही मनुष्यकी रचना की है। इसलिये सारे धनका उपयोग यज्ञके लिये ही करना चाहिये। उसे भोग-में लगाना अच्छा नहीं है। इसीसे लोगोंका विचार है कि धन कमी किसी एकका नहीं है। अतः श्रद्धावान् पुरुषको उसे दान और यज्ञमें लगाते रहना चाहिये। जो धन मिले उसे दानमें ही लगा दे, भोगोंमें न लगावे। दान देनेमें भी दो भूलें हुआ करती हैं। उनपर ध्यान रखना चाहिये। एक तो कुपात्रके पास धन पहुँच जाना और दूसरे सुपात्रको न मिलना।

“अर्जुन ! इस युद्धमें बालक अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, वृषसेन, धृष्टकेतु तथा भिन्न-भिन्न देशोंके अनेकों नृपतिगण काम आ गये हैं। इस सारे

बन्धुवधकी जड़ में ही हैं। हाय ! मैं बड़ा ही राज्यलोलुप और क्रूर हूँ। मैंने अपने कुटुम्बका भी मूलोच्छेद करा डाला। इसीसे मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता है, मैं अत्यन्त आतुर हो रहा हूँ। मैं कैसा मूर्ख और गुह्यद्रोही हूँ ? भला, यह राज्य कितने दिन टिकनेवाला है; इसीके लोभमें पड़कर मैंने अपने दादा भीष्मजीको भी मरवा डाला। अरे ! उन्होंने तो हमें पाल-पोसकर बचचेसे बड़ा किया था। गुह्यद्रोणाचार्यको मेरी सत्यवादितामें विश्वास था, इसीसे उन्होंने मुझसे अपने पुत्रके बंधोंके विषयमें पूछा था। किंतु मैंने हाथीकी आड़ लेकर नूठ वोल दिया। ऐसा भारी पाप करके भला, मेरी किस लोकमें गति होगी ? हाय ! मुझसे बड़ा और कौन पापी होगा ? मैंने तो अपने बड़े भाई कर्णको भी मरवा डाला। इस राज्यके लोभसे ही मैंने बालक अभिमन्युको कौरवोंकी सेनामें भेज दिया। तबसे तो तुम्हारी ओर मेरी आँखें ही नहीं उठतीं। बेशचारी दुःखिनी द्रौपदीके पाँचों पुत्र मारे गये। उनका शोक भी मुझे बराबर सालता रहता है। अब तो तुम मुझे प्रायोपवेशके लिये ही बँठा हुआ समझो। मैं यहाँ बैठे-बैठे अपना शरीर सुखा डालूँगा। इस गङ्गातटपर ही मैं अपने प्राणोंको नष्ट कर दूँगा। आप सब लोग मुझे इस प्रायश्चित्तके लिये आज्ञा दीजिये।”

श्रीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरको अश्मा मुनिका कहा हुआ धर्मोपदेश सुनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिरको अपने सम्बन्धियोंके शोकसे संतप्त होकर प्राण त्यागनेके लिये तैयार देख श्रीव्यासजी उनका शोक दूर करनेके लिये बोले—युधिष्ठिर ! इस विषयमें अश्मा ब्राह्मणका कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है। उसपर ध्यान दो। एक बार विदेहराज जनकने दुःख और शोकके बशीरूत होकर महामति विप्रवर अश्मासे पूछा था कि ‘अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको कैसा बर्ताव करना चाहिये ?’

इसपर अश्माने कहा—राजन् ! यह पुरुष जैसे जन्म लेता है उसके साथ ही दुःख और सुख इसके पीछे लग जाते हैं। वे इसके ज्ञानको उतनी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जैसे वायु बादलोंको छिन्न-भिन्न कर देता है। इसीसे मनुष्यके हृदयमें ‘मैं कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ’ ये तीन बातें घुस बैठती हैं। इनके नशेमें भरकर वह अपने बाप-दादोंसे प्राप्त हुई पूँजीको सुटाकर कंगाल हो जाता है

और फिर दूसरोंके धनपर मन ले जाता है। उसे मर्यादाका कोई ख्याल नहीं रहता। वह अनुचित उपायोंसे धन जुटाने लगता है। यह देखकर राजालोग उसे दण्ड देते हैं। इसलिये मनुष्यके ऊपर सुख या दुःख जो कुछ आ पड़े उसे सहना ही चाहिये, क्योंकि उसे दूर करनेका कोई उपाय भी तो नहीं है। अप्रियोंका संयोग, प्रेमियोंका वियोग, इष्ट, अनिष्ट और सुख-दुःख—इनकी प्राप्ति प्रारब्धानुसार ही होती है। इसी प्रकार जन्म-मरण और हानि-लाभ भी देवाधीन ही हैं। बँधोंको भी रोगी होते देखा जाता है, बलवान् भी कमी-कमी निबल हो जाते हैं तथा श्रीमान् भी कंगाल होते देखे गये हैं। यह कालका उलट-फेर बड़ा ही अद्भुत है। अच्छे कुलमें जन्म, पुरुषार्थ, आरोग्य, रूप, सीमाग्य और ऐश्वर्य—ये सब प्रारब्धसे ही मिलते हैं। जो कंगाल हैं और चाहते भी नहीं हैं, उनके तो कई-कई पुत्र हो जाते हैं और जो सम्पन्न हैं, उन्हें एक भी नसीब नहीं होता; विघाताकी करनी बड़ी ही विचित्र है। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख-प्यास, आपत्ति, विष,

ज्वर, मृत्यु और ऊँची स्थितिसे गिरना—ये सब जीवके जन्मके समय ही निश्चित हो जाने हैं। उसी नियमके अनुसार इसे इन स्थितियोंमें जाना पड़ता है। आजतक न तो कोई इनमें छूट सका है और न अब छूट सकता है। इस प्रकार कालके प्रभावसे जब जीवोंका इष्ट और अनिष्ट पदार्थोंके साथ सम्बन्ध होता है। वायु, आकाश, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, दिन, रात, नक्षत्र, नदी और पर्वतोंको भी कालके सिवा और कीन बनाता और स्थिर रखता है? सर्वों, गर्मों और बर्षाका चक्र भी कालहीके योगसे चलता है। यही बात मनुष्योंके मुख-शुःखके विषयमें भी है। राजन् ! जब मनुष्यपर मृत्यु या वृद्धावस्थाकी चढ़ाई होती है तो औषधि, भोजन, होम और जप कोई भी उसे बचा नहीं सकते। जिस प्रकार समुद्रमें दो लवण-कमी मिलते और कमी विद्युद्ग जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ जीवोंका समागम होता है। इस संसारमें हमारे हजारों माता-पिता और सँकड़ों स्त्रियों, पुत्र हो चुके हैं। परंतु सोचो तो वास्तवमें वे किसके हुए और हम अपनेको किसका बहें? इस जीवका न तो कमी कोई सम्बन्धो हुआ है और न होगा ही। रास्तेमें चलते हुए बटोहियोंके समान ही हमारा स्त्री, बन्धु और सुहृद्गणसे समागम हो जाता है। अतः विवेकी पुरुषको अपने मनमें इसीपर विचार करना चाहिये कि—मैं कहाँ हूँ? कहाँ जाऊँगा? कौन हूँ? यहाँ किस कारणसे आया हूँ और किस-लिये किसका शोक करूँ? यह संसार अनित्य है और चक्रके समान घूमता रहता है। इसमें माता-पिता, भाई और मित्रोंका समागम रास्तेमें मिले हुए बटोहियोंके समान ही है।

कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि शास्त्राज्ञाका उत्लङ्घन न करके उसमें धृढा रखले, पितरोंका आदर और देवताओंका पूजन करे, यज्ञोंका अनुष्ठान करे तथा धर्म, अर्थ और कामका सेवन करे। हाय ! यह सारा संसार अगाध कालमयुद्धमें डूबा हुआ है। उसमें जरा-मृत्यु-जैसे विशाल पाह भरे हुए हैं, किंतु इसे कुछ हीसा ही नहीं है। बँधलोग भी बड़े कड़वे-कड़वे काड़े और तरह-तरहके पत पीने रहते हैं; तो भी, समुद्र जैसे अपने तटका उत्लङ्घन नहीं करता, उसी प्रकार

मृत्युको वे भी पार नहीं कर पाते। जो रसायनोंके ज्ञान-वाले बंध तरह-तरहके रासायनिक द्रव्योंका सेवन करते रहते हैं, किंतु उन्हें भी बुझायेमें जरूर होने देया ही जाता है। इसी प्रकार तपस्वी, स्वाध्याय-शास्त्र, दानों और बड़े-बड़े यज्ञ करनेवाले भी जरा और मृत्युको पार नहीं कर सकते। जन्म लेनेवाले सभी जीवोंके दिन-रात, मास-वर्ष और पक्ष एक बार बीतकर फिर कमी नहीं सोते। मृत्युका यह संबा रास्ता सभी जीवोंको तय करना पड़ता है। अतः ऐसा कोई भी मरणधर्म मनुष्य नहीं है, जिसे कालके बसोमत होकर इसमेंसे निकलना न पड़े। इस मार्गमें स्त्री आदिके साथ जो समागम होता है, वह राहगीरोंके समान कुछ ही क्षणोंका है। इनमेंसे किमोंके भी साथ मनुष्यका नित्य सहवास नहीं हो सकता। जब अपने शरीरके साथ ही इसका बहुत दिनोंतक सम्बन्ध नहीं रहता तो शरीरके सम्बन्धियोंके साथ तो रह ही कैसे सकता है? राजन् ! आज तुम्हारे बाप-दादे कहाँ गये? अब न तो तुम ही उन्हें देखते हो और न वे ही तुम्हें देखते हैं। स्वर्ग और नरकको तो मनुष्य इन नेत्रोंसे देख नहीं सकता। उन्हें देखनेके लिये तो सत्युपय शास्त्ररूपी नेत्रोंसे ही काम लेते हैं। अतः तुम शास्त्रके अनुसार ही आचरण करो।

मनुष्यको पहले ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये। उसके बाद वह गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पितर और देवताओंके ऋणसे मुक्त होनेके लिये संतानोत्पादन और यज्ञानुष्ठान करे। ऐसे मूढमदरां गृहस्थको अपने हृदयका शोक त्यागकर इहलोक, स्वर्गलोक अथवा परात्माको आराधना करनी चाहिये। जो राजा शास्त्रानुसार धर्मका आचरण और द्रव्य-संप्रह करता है उसका सभूषण चराचर लोकमें सुचारु फल जाता है।

व्यासराजी कहते हैं—मुधिष्ठिर ! अस्मानुनिते इस प्रकार धर्मका रहस्य जानकर राजा जनककी बुद्धि गूढ़ हो गयी, उसका सब मनोरथ पूरा हो गया और वह शोकहीन हो मुनिते आता लेकर अपने भवनको चला गया। इसी प्रकार तुम भी शोक त्यागकर लड़ो जाओ। मनको प्रसन्न करो और शास्त्रधर्मके अनुसार जीते हुए इस पृथ्वीके राज्यको भोगो।

श्रीकृष्णका नारदजीद्वारा सृञ्जयके प्रति कहे हुए अनेकों राजाओंके दृष्टान्त मुनाकर राजा मुधिष्ठिरको समझाना

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! व्यासजीका यह उपदेश सुनकर राजा मुधिष्ठिरने कुछ भी नहीं कहा। उन्हें चुप देखकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा, 'माधव ! धर्मराज

मुधिष्ठिर बन्धुओंके शोकसे अत्यन्त पीड़ित हैं; वे शोकसागरमें डूबे जा रहे हैं। आप उन्हें दृष्टिसे बंधाओ।'

अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर

युधिष्ठिरके पास जाकर बैठ गये। धर्मराज श्रीकृष्णकी बात टाल नहीं सकते थे; क्योंकि वचनसे ही श्रीकृष्णके प्रति



उनकी अर्जुनसे भी बढ़कर प्रीति थी। तब श्रीश्यामसुन्दरने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने वचनोंसे प्रसन्न करते हुए कहा—“राजन् ! अब आप शोक न करें। यह आपके शरीरको सुखाये देता है। जो लोग इस रणाङ्गणमें मारे गये हैं, उनका मिलना तो अब सम्भव है नहीं। जिस प्रकार जगनेपर स्वप्नमें प्राप्त होनेवाले सब लाभ व्यर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार इस महायुद्धमें जो क्षत्रिय मारे गये उन्हें तो तुम गये हुए ही समझो। उन सभीने बड़े-बड़े वीरोंके साथ लोहा लेकर अपने प्राण त्यागे हैं। शस्त्रोंसे मारे जानेके कारण वे सब स्वर्गको ही गये हैं। आप उनके लिये शोक न करें। वे सभी बड़े शूरवीर, क्षात्रधर्ममें तत्पर रहनेवाले और वेद-वेदाङ्गोंके पारदर्शी थे। उन्होंने वीरोंके योग्य उत्तम गति पायी है; इसलिये आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। इस विषयमें मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ।

“एक बार राजा सृञ्जय पुत्रशोकमें डूबे हुए थे। उस समय उनसे श्रीनारदजीने कहा—‘सृञ्जय ! सुख-दुःखसे तो मैं, तुम और सारी प्रजासे कोई भी छूटा हुआ नहीं है; इसलिये इसके लिये क्या शोक किया जाय। तुम अपने शोकको शान्त करो और मैं जो बात कहता हूँ उसपर ध्यान दो। यह

प्राचीन राजाओंका बड़ा मनोहर प्रसंग है। इसे सुननेसे क्रूर ग्रहोंका शमन होता है और आयुकी वृद्धि होती है।

‘राजन् ! हमलोग सुनते ही हैं कि राजा सुहोत्र मर गया। वह बड़ा ही अतिथियेवी था। इन्द्रने एक सालतक उसके राज्यमें सुवर्णकी वर्षा की थी। उसके राज्यकालमें पृथ्वीका वसुमती नाम चरितार्थ हो गया था। नदियोंमें भी उस समय सुवर्ण ही बहता था। इन्द्रने उनके कछुए, कंकड़े, नाके, मगर और शिशाकोंको भी सोनेका कर दिया था। राजा सुहोत्रने उस सारे सुवर्णको कुरुजाङ्गल देशमें इकट्ठा कराया और एक भारी यज्ञका आयोजन करके उसे ब्राह्मणोंको दे दिया। सृञ्जय ! वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारोंहीमें तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था और तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यवान् था। किंतु अन्तमें मर वह भी गया; इसलिये तुम्हें अपने पुत्रका शोक नहीं करना चाहिये।

‘सृञ्जय ! उशीनरके पुत्र शिबिके मरनेकी बात भी हमने सुनी ही है। प्रजापति ब्रह्माजी भी राज्यका भार संभालनेमें उसके समान किसी दूसरे भूत या भावी राजाको नहीं समझते थे। तुम्हारा पुत्र तो न दक्षिणा देनेवाला था और न यज्ञ करनेवाला। तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा तो वह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों बातोंमें बढ़-चढ़कर था। किंतु वह भी मर ही गया; इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये शोक न करो।

‘दुष्यन्तके पुत्र भरतने हजार अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ किये थे। वह भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे अर्थात् चारों बातों में बढ़ा-चढ़ा था। किंतु वह भी कालके गालमें चला ही गया; इसलिये तुम अपने लड़केके लिये शोक मत करो।

‘सृञ्जय ! सुना जाता है कि वंशारयनन्वन राम प्रजाको अपनी संतानके समान पालते थे। उनके राज्यमें कोई भी स्त्री विधवा या अनाया नहीं थी, मेघ समयपर वर्षा करते थे, समयपर अन्न पकता था और सर्वदा सुकाल रहता था। उस समय कोई जीव पानीमें डूबकर नहीं मरता था, किसी को आगसे कष्ट नहीं पहुंचता था और रोगोंका भी कोई भय नहीं था। स्त्री और पुरुषोंकी सहस्रों वर्षकी आयु होती थी, विवाद तो स्त्रियोंमें भी नहीं होता था, पुरुषोंकी तो बात ही क्या ? प्रजा सर्वदा धर्ममें तत्पर रहती थी और सब लोग संतुष्ट, पूर्णकाम, निर्भय, स्वेच्छानुसार आचरण करनेवाले एवं सत्यवादी थे। जबतक उन्होंने राग्य किया, वृक्ष सर्वदा फल-फूलोंसे लदे रहे और गीएँ बोहनी भरकर दूध देती रहीं। उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले दस अश्वमेध यज्ञ किये थे, जिनमें आने-जानेके लिये किसीको भी रोक-टोक

नहीं थी। महाबाहु राम नित्यनवधौवनरासो, श्यामवर्ण, अरुणधन, आजानुबाहु, सुन्दर मुलबाले और सिंहके समान कंधोंवाले थे। उन्होंने ग्यारह हजार वर्षोंतक अयोध्याका राज्य किया था। जब वे भी परलोक सिधार गये तो तुम्हारे पुत्रकी तो बात ही क्या है? तुम उसके लिये शोक न करो।

'हम सुनते हैं, राजा भागीरथ भी नहीं रहा। उसने यतानुष्ठान करते समय सुवर्णके आभूषणोंसे लदी हुई दस लाख कन्याएँ दक्षिणामें दान कर दी थीं। उनमेंसे प्रत्येक कन्या रथमें बँठी हुई थी, प्रत्येक रथमें चार-चार घोड़े थे और उसके पीछे सुवर्ण तथा कमलकी माताओंसे विभूषित सौ-सौ हाथी थे, एक-एक हाथीके पीछे हजार-हजार घोड़े चल रहे थे तथा एक-एक घोड़ेके पीछे हजार-हजार गौएँ और प्रत्येक गौके साथ एक-एक हजार भेड़ और बकरियाँ थीं। तीनों लोकोंमें प्रवाहित होनेवाली गङ्गाजी उनकी पुत्री हीकर प्रकट हुई थीं। इसीसे वे भागीरथी कहलायों। किंतु देखो, वे भी मर ही गये। इसलिये अपने पुत्रके लिये तुम शोक मत करो।

'सृञ्जय! मुना जाता है, राजा दिलीप भी जीवित नहीं रहे। उनके महान् कर्मोंका तो ब्राह्मणलोग अबतक बलान करते हैं। उन्होंने जब यतानुष्ठान किया था तो इन्द्रादि देवताओंने प्रत्यक्ष होकर उसमें भाग लिया था। उनके यज्ञपाद और धूप भी सोनेके थे तथा उनके यज्ञोत्सवमें छः हजार देवता और गन्धर्वोंने सत्तों स्वर्णके अनुसार नृत्य किया था। जिन लोगोंने उन सत्यवादी महात्मा दिलीपका दर्शन किया था वे भी स्वर्णके अधिकारी हो गये थे। उनके राज-महलोंमें वेदग्वनि, धनुषकी प्रत्यञ्चाक्षी टंकार और पाचकोका कोलाहल—ये तीन शब्द कभी बंद नहीं होते थे। किंतु मृत्युने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये शोक मत करो।

'युवनाश्वके पुत्र राजा माग्धाता भी मर ही गये। उनके पिताने भूलसे यज्ञका अभिमन्वित जल पी लिया था। इसीसे उन्होंने पिताके उदरसे ही जन्म लिया। वे बड़े ही संभवशाली और त्रिलोकविजयी थे। उनका रूप साक्षात् देवताओंके समान था। उन्हें राजा युवनाश्वकी गोदमें लेता देलकर देवताओंमें आपसमें चर्चा होने लगी कि यह बालक किसका स्तनपान करेगा? तब इन्द्रने कहा 'मां धाता' (मेरा दूध पिपेगा)। ऐसा कहकर उन्होंने उसका नाम 'माग्धाता' रख दिया। इसी समय इन्द्रके हाथसे दूधकी धारा निकलने लगी और उसे उन्होंने उस बालकके मुँहमें छोड़ा। उसे पीनेसे वह एक ही दिनमें सौ पल बड़ गया और बारह दिनमें ही बारह वर्षका-सा जान पड़ने लगा। यह बालक बड़ा ही धर्मात्मा,

शूरवीर और युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी हुआ। इतने राजा अङ्गार, मरुत, गय, अङ्ग और बृहद्रथकी भी परास्त कर दिया था। सूर्यके उदयस्थानसे लेकर अस्त होनेके स्थानतक सारा देश राजा माग्धाताके ही अधिकारमें था। उन्होंने सौ अश्व-मेघ और सौ राजसूय यज्ञ किये थे तथा दस योजन संबंध और एक योजन ऊँचे सोनेके मत्स्य धनवाकर ब्राह्मणोंको दान किये थे। किंतु आज उन परमप्रतापी माग्धाताका भी बहोँ नाम-निरान नहीं है। फिर तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक करते हो?

'सृञ्जय! नामागके पुत्र राजा अम्बरीष अब नहीं रहे हैं—यह बात भी मुनी ही जाती है। उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके ब्राह्मणोंका ऐसा सत्कार किया था कि वे उनकी सराहना करते हुए यही कहते थे कि 'ऐसा यज्ञ न तो पहले किसीने किया है और न भविष्यमें हो कोई करेगा।' उस यज्ञमें जिन सत्तों राजाओंने सेवाकार्य किया था, वे सभी अश्वमेघ यज्ञका फल भोगनेके लिये उत्तरायणमार्गसे हिरण्यगर्भलोकमें गये थे; किंतु कराल कालने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिये तुम अपने पुत्रका शोक त्याग दो।

'राजन्! हम सुनते हैं कि चित्ररथका पुत्र शशाबिन्दु भी मर गया। उसके एक साल रानियाँ थीं। उनसे उसके दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक राजकुमारको सौ-सौ कन्याएँ विवाही थीं। प्रत्येक कन्याके पीछे सौ-सौ हाथी थे और एक-एक हाथीके साथ सौ-सौ रथ थे। एक-एक रथके पीछे सौ-सौ घोड़े थे और एक-एक घोड़ेके पीछे सौ-सौ गौएँ थीं। इसी क्रमसे एक-एक गौके पीछे सौ-सौ भेड़ें दहेजमें मिली थीं। किंतु महाराज शशाबिन्दुने एक अश्वमेघ यज्ञमें यह सारा धन ब्राह्मणोंको दान कर दिया था। तुमसे तो यह राजा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों बातोंमें बड़ा-बड़ा था। वह भी मृत्युके मूलमें चला ही गया; इसलिये तुम यह पुत्रशोक त्याग दो।

'सृञ्जय! अमृत्तरथके पुत्र गयकी मृत्युके विषयमें भी हम सुनते ही हैं। एक बार यज्ञमें अग्निदेव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वर माँगनेको कहा। तब गयने कहा कि 'अग्निदेव! आपकी कृपासे मेरे पास अश्व धन हो, धर्ममें मेरी धृष्टा रहे और सत्यमें मनका अनुराग हो।' इस प्रकार अग्निदेवकी कृपासे उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गये। उन्होंने हजार वर्षतक पूर्णिमा, अमावास्या और चातुर्मास्यमें अनेकों बार अश्वमेघ यज्ञोंका अनुष्ठान किया और हजार वर्षतक ही नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर एक-एक साल गौएँ और सौ-सौ रत्नचक्र ब्राह्मणोंको दान किये। किंतु अन्तमें

युधिष्ठिरके पास जाकर बैठ गये। धर्मराज श्रीकृष्णकी बात टाल नहीं सकते थे; क्योंकि वचनसे ही श्रीकृष्णके प्रति



उनकी अर्जुनसे भी बढ़कर प्रीति थी। तब श्रीश्यामसुन्दरने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने वचनोंसे प्रसन्न करते हुए कहा—“राजन्! अब आप शोक न करें। यह आपके शरीरको सुखाये देता है। जो लोग इस रणाङ्गणमें मारे गये हैं, उनका मिलना तो अब सम्भव है नहीं। जिस प्रकार जगनेपर स्वप्नमें प्राप्त होनेवाले सब लाभ व्यर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार इस महायुद्धमें जो क्षत्रिय मारे गये उन्हें तो तुम गये हुए ही समझो। उन सभीने बड़े-बड़े वीरोंके साथ लोहा लेकर अपने प्राण त्यागे हैं। शस्त्रोंसे मारे जानेके कारण वे सब स्वर्गको ही गये हैं। आप उनके लिये शोक न करें। वे सभी बड़े शूरीर, क्षात्रधर्ममें तत्पर रहनेवाले और वेद-वेदाङ्गोंके पारदर्शी थे। उन्होंने वीरोंके योग्य उत्तम गति पायी है; इसलिये आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। इस विषयमें मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ।

“एक बार राजा सृञ्जय पुत्रशोकमें डूबे हुए थे। उस समय उनसे श्रीनारदजीने कहा—“सृञ्जय! सुख-दुःखसे तो मैं, तुम और सारी प्रजामेंसे कोई भी छूटा हुआ नहीं है; इसलिये इसके लिये क्या शोक किया जाय। तुम अपने शोकको शान्त करो और मैं जो बात कहता हूँ उसपर ध्यान दो। यह

प्राचीन राजाओंका बड़ा मनोहर प्रसंग है। इसे सुननेसे क्रूर ग्रहोंका शमन होता है और आयुकी वृद्धि होती है।

‘राजन्! हमलोग सुनते ही हैं कि राजा सुहोत्र मर गया। वह बड़ा ही अतिथियसेवी था। इन्द्रने एक सालतक उसके राज्यमें सुवर्णकी वर्षा की थी। उसके राज्यकालमें पृथ्वीका वसुमती नाम चरितार्थ हो गया था। नदियोंमें भी उस समय सुवर्ण ही बहता था। इन्द्रने उनके कछुए, कंकड़े, नाके, मगर और शिशुकोंको भी सोनेका कर दिया था। राजा सुहोत्रने उस सारे सुवर्णको कुरुजाङ्गल देशमें इकट्ठा कराया और एक भारी यज्ञका आयोजन करके उसे ब्राह्मणोंको दे दिया। सृञ्जय! वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारोंहीमें तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था और तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यवान् था। किंतु अन्तमें मर वह भी गया; इसलिये तुम्हें अपने पुत्रका शोक नहीं करना चाहिये।

‘सृञ्जय! उसीनरके पुत्र शिबिके मरनेकी बात भी हमने सुनी ही है। प्रजापति ब्रह्माजी भी राज्यका भार संभालनेमें उसके समान किसी दूसरे भूत या भावी राजाको नहीं समझते थे। तुम्हारा पुत्र तो न दक्षिणा देनेवाला था और न यज्ञ करनेवाला। तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा तो वह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों बातोंमें बढ़-चढ़कर था। किंतु वह भी मर ही गया; इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये शोक न करो।

‘दुष्यन्तके पुत्र भरतने हजार अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ किये थे। वह भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे अर्थात् चारों बातों में बढ़ा-चढ़ा था। किंतु वह भी कालके गालमें चला ही गया; इसलिये तुम अपने लड़केके लिये शोक मत करो।

‘सृञ्जय! सुना जाता है कि दशरथनन्दन राम प्रजाको अपनी संतानके समान पालते थे। उनके राज्यमें कोई भी स्त्री विधवा या अनाया नहीं थी, मेघ समयपर वर्षा करते थे, समयपर अन्न पकता था और सर्वदा सुकाल रहता था। उस समय कोई जीव पानीमें डूबकर नहीं मरता था, किसी को आगसे कष्ट नहीं पहुँचता था और रोगोंका भी कोई भय नहीं था। स्त्री और पुरुषोंकी सहस्रों वर्षकी आयु होती थी, विवाद तो स्त्रियोंमें भी नहीं होता था, पुरुषोंकी तो बात ही क्या? प्रजा सर्वदा धर्ममें तत्पर रहती थी और सब लोग संतुष्ट, पूर्णकाम, निर्भय, स्वेच्छानुसार आचरण करनेवाले एवं सत्यवादी थे। जबतक उन्होंने राज्य किया, वृक्ष सर्वदा फल-फूलोंसे लदे रहे और गौएँ दोहनी भरकर दूध बेती रहीं। उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले दस अश्वमेध यज्ञ किये थे, जिनमें आने-जानेके लिये किसीको भी रोक-टोक

नहीं थी। महाबाहु राम नित्यनवयौवनसाली, श्यामवर्ण, अरुणनयन, आजानुबाहु, सुन्दर मुखवाले और सिंहके समान कंधोंवाले थे। उन्होंने प्यारह हजार वर्षयुक्त अयोध्याका राज्य किया था। जब वे भी परलोक सिधार गये तो तुम्हारे पुत्रकी तो बात ही क्या है? तुम उसके लिये शोक न करो।

‘हम सुनते हैं, राजा भागीरथ भी नहीं रहा। उसने यज्ञानुष्ठान करते समय सुवर्णके आभूषणोंसे लवी हुई दस लाख कन्याएँ दक्षिणामें दान कर दी थीं। उनमेंसे प्रत्येक कन्या रथमें बँठी हुई थी, प्रत्येक रथमें चार-चार घोड़े थे और उसके पीछे सुवर्ण तथा कमलकी माताओंसे विभूषित सौ-सौ हाथी थे, एक-एक हाथीके पीछे हजार-हजार घोड़े चल रहे थे तथा एक-एक घोड़ेके पीछे हजार-हजार गौएँ और प्रत्येक गौके साथ एक-एक हजार भेड़ और बकरियाँ थीं। तीनों लोकोंमें प्रवाहित होनेवाली गङ्गाजी उनकी पुत्री होकर प्रकट हुई थीं। इसीसे वे भागीरथी कहलायीं। किंतु देखो, वे भी मर ही गये। इसलिये अपने पुत्रके लिये तुम शोक मत करो।

‘सृज्य ! सुना जाता है, राजा दिलीप भी जीवित नहीं रहे। उनके महानु कर्मोंका तो ब्राह्मणलोग अबतक बलान करते हैं। उन्होंने जब यज्ञानुष्ठान किया था तो इन्द्रादि देवताओंने प्रत्यक्ष होकर उसमें भाग लिया था। उनके यज्ञपात्र और मूष भी सोनेके थे तथा उनके यज्ञोत्सवमें छः हजार देवता और गन्धर्वोंने सातों स्वरोके अनुसार नृत्य किया था। जिन लोगोंने उन सत्यवादी महात्मा दिलीपका दर्शन किया था वे भी स्वर्गके अधिकारी हो गये थे। उनके राज-महलोमें वेदध्वनि, धनुषकी प्रत्यञ्चाकने टंकार और पाषाणोंका कौलाहल—ये तीन शब्द कभी बंद नहीं होते थे। किंतु मृत्युने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये शोक मत करो।

‘युवनाश्वके पुत्र राजा मान्धाता भी मर ही गये। उनके पिताने भूलसे यज्ञका अभिमन्त्रित जल पी लिया था। इसीसे उन्होंने पित्तके उदरसे ही जन्म लिया। वे बड़े ही बँपसराली और त्रिलोकविजयी थे। उनका रूप साक्षात् देवताओंके समान था। उन्हें राजा युवनाश्वकी गोदमें लेटा देलकर देवताओंमें आपसमें चर्चा होने लगी कि यह बालक किसका स्तनपान करेगा? तब इन्द्रने कहा ‘मां धाता’ (मेरा दूध पियेगा)। ऐसा कहकर उन्होंने उसका नाम ‘मान्धाता’ रख दिया। इसी समय इन्द्रके हाथसे दूधकी धारा निकलने लगी और उसे उन्होंने उस बालकके मुँहमें छोड़ा। उसे पीनेसे वह एक ही दिनमें सी पल बड़े गया और बारह दिनमें ही बारह वर्षका-सा जान पड़ने लगा। यह बालक बड़ा ही धर्मात्मा,

शूरवीर और युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी हुआ। इसने राजा अङ्गार, भरत, गय, अङ्ग और बृहदशको भी परास्त कर दिया था। सूर्यके उदयस्थानसे लेकर अरत होनेके स्थानतक सारा देश राजा मान्धाताके ही अधिकारमें था। उन्होंने सौ अश्व-मेघ और सौ राजमूष यज्ञ किये थे तथा दस योजन संबं और एक योजन ऊँचे सोनेके मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणोंको दान किये थे। किंतु आज उन परमप्रतापी मान्धाताका भी वहाँ नाम-निशान नहीं है। फिर तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक करते हो?

‘सृज्य ! नामागके पुत्र राजा अम्बरीष अब नहीं रहे हैं—यह बात भी सुनी ही जाती है। उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके ब्राह्मणोंका ऐसा सत्कार किया था कि वे उनकी सराहना करते हुए यही कहते थे कि ‘ऐसा यज्ञ न तो पहले किसीने किया है और न भविष्यमें ही कोई करेगा।’ उस यज्ञमें जिन लाखों राजाओंने सेवाकार्य किया था, वे सभी अश्वमेघ यज्ञका फल भोगनेके लिये उत्तरायणमार्गसे हिरण्यगर्भलोकमें गये थे; किंतु कराल कालने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिये तुम अपने पुत्रका शोक त्याग दो।

‘राजन् ! हम सुनते हैं कि चित्ररथका पुत्र शशबिन्दु भी मर गया। उसके एक लाख रानियाँ थीं। उनसे उसके दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक राजकुमारको सौ-सौ कन्याएँ विवाही थीं। प्रत्येक कन्याके पीछे सौ-सौ हाथी थे और एक-एक हाथीके साथ सौ-सौ रथ थे। एक-एक रथके पीछे सौ-सौ घोड़े थे और एक-एक घोड़ेके पीछे सौ-सौ गौएँ थीं। इसी क्रमसे एक-एक गौके पीछे सौ-सौ भेड़ें बहेजमें मिली थीं। किंतु महाराज शशबिन्दुने एक अश्वमेघ यज्ञमें यह सारा धन ब्राह्मणोंको दान कर दिया था। तुमसे तो वह राजा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों बातोंमें बड़ा-चढ़ा था। यह भी मृत्युके मूलमें चला ही गया; इसलिये तुम यह पुत्रशोक त्याग दो।

‘सृज्य ! अमूर्तरथके पुत्र गयकी मृत्युके विषयमें भी हम सुनते ही हैं। एक बार धर्म अग्निदेव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगनेको कहा। तब गयने कहा कि ‘अग्निदेव ! आपको छुपासे मेरे पास अश्व धन हो, धर्ममें मेरी थढ़ा रहे और सत्यमें मनका अनुराग हो।’ इस प्रकार अग्निदेवकी छुपासे उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गये। उन्होंने हजार वर्षयुक्त पूर्णिमा, अमावास्या और चातुर्मास्यमें अनेकों बार अश्वमेघ यज्ञोंका अनुष्ठान किया और हजार वर्षयुक्त ही नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर एक-एक लाख गौएँ और सौ-सौ खच्चर ब्राह्मणोंको दान किये। किंतु अन्तमें

कानने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिये तुम अपने पुत्रका शोक त्याग दो।

‘राजन् ! इस्त्राकुके वंशमें उत्पन्न हुए राजा सगर अब संसारमें नहीं हैं—यह हम सुनते ही हैं। इनके साथ हजार पुत्र थे, जो उनके पीछे-पीछे चलते थे। अपने बाहुबलसे उन्होंने इस पृथ्वीपर एकच्छत्र राज्य स्थापित किया था और हजार अश्वमेध यज्ञ करके देवताओंको तृप्त किया था। उन यज्ञोंमें उन्होंने ब्राह्मणोंको सोनेके महल दान किये थे। उन्होंने समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वी खुदवा डाली थी तथा उनके नामके अनुसूतार ही समुद्रका ‘सागर’ नाम पड़ा है। परंतु अन्तमें वे भी मर ही गये; इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये शोक न करो !

सृञ्जय ! वेनके पुत्र राजा पृथुका देह भी आज नहीं है। महर्षियोंने महान् वनके बीचमें इनका राज्याभिषेक किया था और यह सोचकर कि ये सब लोकोंमें धर्मको मर्यादा प्रथित (स्थापित) करेंगे, उनका नाम ‘पृथु’ रक्खा था। उन्हें देखकर सभी प्रजाने एक स्वरसे कहा था कि हम इनसे प्रसन्न हैं। इस प्रकार प्रजाका रञ्जन करनेके कारण ही वे ‘राजा’ कहलाये। जिस समय वे राज्य करते थे, पृथ्वी बिना जोते ही धान्य उत्पन्न करती थी, औषधियोंके पुष्ट-पुष्टमें रस था और सभी गीएँ दोहनी भरकर दूध देती थीं। मनुष्य नीरोग, पूर्णकाम और निर्भय थे। वे इच्छानुसार खेतों या घरोंमें रहते थे। जिस समय राजा समुद्रके पास जाते थे, उसका जल स्थिर हो जाता था और नदियाँ बहना बंद कर देती थीं। उन्होंने एक अश्वमेध महायज्ञ करके उसमें ब्राह्मणोंको सोनेके इस्कीस पर्वत दान किये थे। किंतु अन्तमें उन्हें भी कानका प्राप्त बनना पड़ा, इसलिये तुम अपने पुत्रका शोक छोड़ दो।’ इस प्रकार उपदेश देकर नारदजीने पूछा ‘राजन् ! तुम चुपचाप क्या सोच रहे हो ! क्या मेरी बातोंपर तुमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया ? मैंने जो कुछ कहा है वह व्यर्थ ही नहीं है !’

सृञ्जयने कहा—महर्षे ! आपका उपदेश व्यर्थ नहीं हुआ है। आपका दर्शन करके मेरा सारा शोक दूर हो गया है। आपकी बातें सुननेकी मेरी लालसा अभी शान्त नहीं हुई है, अमृतपानके समान उसके लिये मेरी उत्कण्ठा बनी ही हुई है। फिर भी मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार आपकी कृपासे पुत्रके साथ मेरा समागम हो जाय।

नारदजी बोले—राजन् ! महर्षि पर्वतने तुम्हें सुवर्णष्ठीवी नामका पुत्र दिया था। वह तो अब नष्ट हो चुका। इसके स्थानपर मैं तुम्हें हजार वर्षतक जीवित रहनेवाला हिरण्यनाभ नामका दूसरा पुत्र देता हूँ।

श्रीकृष्णकी यह बात समाप्त होनेपर नारदजीने भी उनके कथनका अनुमोदन किया और राजा युधिष्ठिरको सुवर्णष्ठीवीका सारा चरित सुनाकर कहा कि ‘राजन् ! जब सृञ्जयने अपने मृतपुत्रको जीवित करनेके लिये बहुत आग्रह किया तो मैंने उसे सजीव कर दिया। इससे उसके माता-पिताको बड़ी प्रसन्नता हुई। कालान्तरमें पिताका स्वर्गवास होनेपर सुवर्णष्ठीवीने ग्यारह सौ वर्षतक पृथ्वीपर राज्य किया। इसके बाद वह स्वर्ग सिधारा। धर्मराज ! अब तुम भी अपने हृदयका संताप दूर कर दो और श्रीकृष्ण एवं



ध्यासजीके कथनानुसार अपने पंतुक राजसिंहासनपर बैठकर शासनका भार संभालो। यह सब करते हुए यदि तुम बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान करोगे तो अपने अमीष्ट लोक प्राप्त कर लोगे।’

श्रीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरको राजधर्मका उपदेश देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! नारदजीकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गये । उस समय उन्हें शोकप्रस्त देखकर सब प्रकारके धर्मका रहस्य जाननेवाले महर्षि ध्यासने कहा, 'युधिष्ठिर ! राजाओंका धर्म तो प्रजाओंका पालन करना ही है । इसलिये तुम अपना पंतुक राजसिंहासन स्वीकार करो । वेदोंने तपको तो ब्राह्मणोंका ही नित्य धर्म बताया है । क्षत्रिय तो सब प्रकारके धर्मकी रक्षा करनेवाला ही है । जो मनुष्य विषयासक्त होकर धर्मविधिका जल्लङ्घन करता है, वह लोकमर्यादाका विघातक है, क्षत्रियको अपने बाहुयलसे उसका दमन करना चाहिये । जो ध्वजित मोहद्वारा शास्त्रप्रमाणको न माने वह अपना सेवक हो, पुत्र हो, तपस्वी हो अथवा कोई भी क्यों न हो, उस पापीका सब प्रकार दमन करे और उसे नष्ट कर दे । जो राजा इसके विपरीत आचरण करता है, उसे पाप लगता है । जो राजा नष्ट होते हुए धर्मकी रक्षा नहीं करता, वह धर्मका घात करनेवाला है । तुमने तो अनुवायिमोसहित उन धर्म-घातियोंका ही नाश किया है; इसलिये तुम तो अपने धर्ममें ही स्थित हो, फिर शोक क्यों करते हो ? राजाका तो यही धर्म है कि दुष्टोंका बध करे, मुपावोंको दान दे और प्रजाकी रक्षा करे ।'

राजा युधिष्ठिरने कहा—तपोधन ! आप सभी धर्मज्ञोंमें शिरोमणि हैं । आपके लिये धर्म सर्वदा प्रत्यक्ष है । आपके वचनोंमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है; किंतु भगवन् ! इस राज्यके लिये मैंने अनेको अवध्य पुरुषोंका बध करा डाला है, मेरे वे ही कर्म मुझे जला रहे हैं ।

व्यासजी बोले—राजन् ! उदत्त पुरुषोंको दण्ड देना तो राजाका कर्तव्य ही है । इसी नियमके अनुसार तुमने कौरवोंको मारा है । इसलिये अब तुम मनको शोकप्रस्त न करो । सदेव मालूम होनेपर भी अपने धर्मका पालन करते हुए तुम्हें इस प्रकारकी आत्म-ग्लानि शोभा नहीं देती । शास्त्रोंमें जो पापकर्मोंके प्रायश्चित्त बताये हैं, उन्हें भी शरीरधारी ही कर सकता है, शरीर छोड़ देनेपर तो वे भी नहीं किये जा सकते । अतः राजन् ! यदि तुम जीवित रहोगे तो अपने पापका प्रायश्चित्त कर सकोगे । प्रायश्चित्त किये बिना ही यदि शरीर छूट गया तो तुम्हारे हाथ केवल परचात्ताप ही सगंगा ।

युधिष्ठिरने कहा—दादाजी ! मैंने राज्यके सोभने अपने पुत्र, पौत्र, भाई, चाचा, समुद्र, गुरु, मामा, दादा, ५० भा०—१३६

अनेकों धीर क्षत्रिय, सम्बन्धी, सुहृद्, समवयस्क, भानजे, जातिभाई और भिन्न-भिन्न देशोंसे आये हुए राजाओंका बध करा डाला है । उसका मुझे क्या दण्ड मिलेगा ? इस चिन्तासे मैं रात-दिन धार-धार जलता रहता हूँ । जब मैं पृथ्वीको उन श्रीसम्पन्न नृपश्रेष्ठोंसे मूनी देखता हूँ और इस भयानक जातिवध तथा इसमें मारे गये सैकड़ों शत्रुपक्षके वीरों और करोड़ों दूसरे लोगोंकी याद करता हूँ तो मुझे बड़ा ही परचात्ताप होता है । आह ! आज जो अबलाएँ अपने पुत्र, पति और भाइयोंसे शून्य हो गयी हैं, उनकी क्या दशा होगी ? वे उनका नारा करनेवाले हम पाण्डव और धारवोंको कोस रही होंगी और अत्यन्त वीन होकर पृथ्वीपर पछाड़ें खा रही होंगी । विप्रवर ! उन स्त्रियोंका अपने मृत सम्बन्धियोंके प्रति जैसा प्रेम है, उससे मुझे तो यही निश्चय होता है कि वे सब निःसंदेह प्राण त्याग देंगी । धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है, अतः इस प्रकार हमें स्त्रीवधका ही पाप सगेगा । अपने सुहृदोंको मारकर हमने बड़ा भारी पाप किया है; इसलिये अब हमें सिर नीचा किये नरकमें ही गिरना पड़ेगा । अतः अब हम भीषण तपस्या करके अपने शरीरको त्याग देंगे । आपकी दृष्टिमें तपस्याके योग्य कोई उत्तम तपोवन हो तो वतनेकी कृपा करें ।

व्यासजीने कहा—राजन् ! तुम क्षत्रियोंमें अप्रगण्य हो । तुमने अपने धर्मके अनुसार ही इन क्षत्रियोंको मारा है, इसलिये तुम शोक न करो । वे सब तो अपने ही अपराधसे मारे गये हैं । तुम, भीम, अर्जुन या नकुल-सहदेव उन्हें मारनेवाले नहीं हो । इनका संहार तो कालने ही किया है । उसका तो न कोई माता है न पिता, वह किसीपर दया भी नहीं करता, वह तो प्रजाके कर्मोंका साक्षीमात्र है । तुम्हारा युद्ध तो उसके लिये केवल निमित्तमात्र था । वह इसी प्रकार एक प्राणीसे दूसरेकी हत्या करता रहता है । इस संहार-कर्मके लिये यह एक भगवान्का ही स्वरूप है । इसके सिवा, तुम्हें कौरवोंके विनाशकारी कर्मोंपर भी ध्यान देना चाहिये, जिनके कारण उन्हें कालके गालमें जाना पड़ा है । जिस प्रकार लोहारका बनाया हुआ मन्त्र अपना काम करनेमें उसके अधीन रहता है, उसी प्रकार यह सारा जगत् कालाधीन कर्मकी श्रेण्यासे प्रवृत्त हो रहा है । फिर भी तुम्हारे चित्तमें जो इन सबको मरवानेसे ध्येय संताप हो रहा है, उसके बोधसे छूटनेके लिये तुम प्रायश्चित्त कर लो । राजन् ! यह बात सुनी ही जाती है कि पूर्वकालमें राजतन्त्रियोंके लिये ही देवता

और अमुरोंमें बारह हजार वर्षोंतक युद्ध हुआ था। उसमें देवताओंने दैत्योंका संहार करके स्वर्ग और पृथ्वीका आधिपत्य प्राप्त किया था। जो लोग धर्मका नाश करना चाहते हैं और अधर्मको फैलानेवाले हैं, उन्हें मार ही डलना चाहिये। इसीसे देवताओंने उस युद्धमें अट्ठासी हजार शालावृक नामके दैत्योंकी भी मार डाला था। यदि एक पुरुषको मारकर कुटुम्बके शेष व्यक्तियोंको सुख मिले अथवा एक कुटुम्बका सफाया करनेसे देशमें शान्ति स्थापित हो तो उसे नष्ट करनेमें कोई ब्योप नहीं है। राजन् ! किसी समय अधर्म दिखायी देनेवाला कर्म ही धर्म हो जाता है और धर्म दिखायी देनेवाला अधर्म बन जाता है। इस प्रकार बुद्धिमान् पुरुषको धर्म और अधर्मका रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। धर्मराज ! तुमने शास्त्र श्रवण किया है, इसलिये धर्माधर्मके विषयमें अपनी बुद्धि स्थिर रखो। देखो, पूर्वकालमें देवताओंका जो धर्ममार्ग था, उसीका तुमने भी अनुसरण किया है। तुम जैसे धर्मप्राण पुरुष कभी नरकका द्वार नहीं देखते। इसलिये तुम अपने भाइयोंको और सुहृद्-सम्बन्धियोंको धैर्य दो। जो पुरुष हृदयमें पापकी भावना रखकर किसी कुकर्ममें प्रवृत्त होता है और उसे करके भी किसी प्रकार लज्जित नहीं होता, उसीको पापका भागी होना पड़ता है—ऐसा शास्त्रका कथन है। ऐसे पापका न कोई प्रायश्चित्त है और न कभी नाश ही होता है। तुम्हारा हृदय तो शुद्ध था। युद्धकी इच्छा न होनेपर भी शत्रुके अपराधके कारण तुम्हें युद्ध करना पड़ा और अब इस कर्मको करके पश्चात्ताप भी कर रहे हो।

पाप और उनके प्रायश्चित्तोंका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! कृपा करके यह बताइये कि किन कर्मोंको करनेसे मनुष्य प्रायश्चित्तका भागी बनता है और ऐसी स्थितिमें क्या करनेसे वह पापसे मुक्त होता है ?

व्यासजीने कहा—जो मनुष्य शास्त्रविहित कर्मोंका आचरण न करके निषिद्ध कर्म कर बैठता है, उसे ऐसा विपरीत आचरण करनेसे प्रायश्चित्तका भागी बनना पड़ता है। जो ब्रह्मचारी सूर्योदय या सूर्यास्तके समय सोता रहे अथवा जिस पुरुषके नख या दाँत काले हों* उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये। इसके सिवा बड़े भाईके अविवाहित रहते हुए विवाह करनेवाला छोटा भाई, ब्राह्मणका वध करनेवाला, निन्दक, छोटी कन्याका विवाह हो जानेके बाद उसकी

इसके लिये अश्वमेध यज्ञ बड़ा अच्छा प्रायश्चित्त है। उसका अनुष्ठान करो, तुम निष्पाप हो जाओगे। इन्द्रने भी भरतोंकी सहायतासे अपने शत्रुओंको परास्त करके एकके बाद एक— इस प्रकार सौ अश्वमेध यज्ञ किये थे। इसीसे वे 'शतक्रतु' नामसे प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार स्वर्गपर आधिपत्य प्राप्त करके उन्होंने पापोंसे छुटकारा पाया था। स्वर्गलोकमें देवता और ऋषि भी उसकी उपासना करते हैं। तुमने भी इस वसुंधराको अपने पराक्रमसे प्राप्त किया है और अपने बाहुबलसे ही तुमने राजाओंको परास्त किया है। अब तुम अपने मित्रोंके साथ उनके देश और राजधानियोंमें जाकर उनके भाई, पुत्र या पौत्रोंको अपने-अपने राज्यपर अभिषिक्त करो। जिन राजाओंके उत्तराधिकारी अभी गर्भहीमें हैं, उनकी प्रजाको समझा-बुझाकर सान्त्वना दो। इस प्रकार सभी प्रजाका मनोरञ्जन करते हुए पृथ्वीका पालन करो। जिन राजाओंके पुत्र नहीं हैं, उनकी गद्दीपर पुत्रीका ही अभिषेक कर दो। भरतश्रेष्ठ ! इस तरह सारे राज्यमें शान्ति स्थापित कर तुम अमुरविजयी इन्द्रके समान अश्वमेधयज्ञद्वारा भगवान्का यजन करो। राजन् ! इस युद्धमें जो क्षत्रिय मारे गये हैं, उनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। वे तो कालकी शक्तितसे मोहित होकर अपने ही कुकर्मोंके कारण मीतके मुखमें पड़े हैं। उन्हें क्षात्रधर्मके पालनका पूरा फल प्राप्त हुआ है। तुम्हें यह निष्कण्टक राज्य मिला है। इसका पालन करते हुए तुम धर्मकी रक्षा करो। मरनेपर कल्याण करनेवाली यही चीज है।

बड़ी बहिनसे विवाह करनेवाला, बड़ी बहिनके अविवाहित रहते हुए उसकी छोटी बहिनसे विवाह करनेवाला, जिसका व्रत नष्ट हो गया हो वह ब्रह्मचारी, द्विजकी हत्या करनेवाला, अपात्रको दान देनेवाला, सुपात्रको दान न देनेवाला, सारे ग्रामको नष्ट करनेवाला, मांस बेचनेवाला, आग लगानेवाला, वेतन लेकर वेद पढ़ानेवाला, गुरु और स्त्रीका वध करनेवाला, दूसरोंका घर जलानेवाला, भूठ बोलकर पेट पालनेवाला, गुस्का अपमान और सदाचारकी मर्यादाका उल्लङ्घन करनेवाला—ये सभी पापी माने जाते हैं, इन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये।

इनके सिवा, जो लोक और वेदसे विरुद्ध दूसरे न करने योग्य कर्म हैं, उन्हें भी बताता हूँ, तुम एकाग्रचित्तसे सुनो। अपने धर्मको त्यागना, दूसरेके धर्मका आचरण करना, यज्ञ करनेके अनधिकारीसे यज्ञ कराना, अमक्ष्य भक्षण करना,

* क्योंकि 'स्वर्णहारो तु कुनखी सुरापः श्यावदन्तकः' इस स्मृतिके अनुसार वे पूर्वजन्ममें क्रमशः सुवर्णकी चोरी करनेवाले और शरावी होते हैं।

शरणागतको त्यागना, माता, पिता और भरण-पोषणके अधिकारी सेवक आदिका भरण-पोषण न करना, दूध-दही आदि रसोको बेचना, पशु-पक्षियोंको मारना, शक्ति रहते हुए भी अग्निघातन आदि कर्म न करना, गोप्राप्त आदि जित्य दानोंको न देना, ब्राह्मणोंको दक्षिणा न देना और ब्राह्मणोंका धन छीन लेना—धर्मतत्त्वके जाननेवालोंने ये सभी कर्म न करनेयोग्य बताया है ।

राजन् ! जो पुरुष पित्तके साथ भगड़ा करता है, गुह-स्त्रीके साथ समागम करता है और ऋतुकाल होनेपर अपनी स्त्रीके साथ सहवास नहीं करता, वह धर्मका त्याग करनेवाला है । इस प्रकार संक्षेप और विस्तारमें ऊपर जो कर्म कहे गये हैं, इनमेंसे किन्हींको करनेपर और किन्हींको न करनेपर मनुष्य प्रायश्चित्तका भागी होता है । अब, जिन-जिन कारणोंसे इन कर्मोंको करनेपर भी मनुष्य को पाप नहीं लगता वह मुनो । यदि गुह-स्थलमें कोई वेद-वेदान्तोंका पार-गामी ब्राह्मण भी हाथमें हथियार लेकर मारनेके लिये आवे तो उसका वध करनेसे ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता । राजन् ! इस विषयमें वेदका मन्त्र भी है । मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो वेद-वाचकके अनुसार धर्म मानो गयी है । यदि कोई पुरुष अपने धर्मसे डिगें हुए आततायी ब्राह्मण-को मार डाले तो इससे भी वह ब्रह्महत्याका नहीं होता । अनजानमें अथवा प्राणसंकटके समय भी यदि मार डाला जाय तो तो बादमें धर्मत्यागोंकी आज्ञाके अनुसार उसका पुनः संस्कार होना चाहिये । इसी प्रकार अन्य सब अमक्ष्य-भक्षणोंके विषयमें भी समझना चाहिये । यदि कभी ऐसी कोई मूल हो जाय तो प्रायश्चित्तसे ही उसकी शुद्धि होती है ।

चोरी सर्वदा निषिद्ध ही है, किन्तु आपत्तिके समय यदि गृहके लिये चोरी की जाय तो उसमें दोष नहीं है । यदि चोरी करनेमें किसी प्रकार की कामना न हो, उससे प्राप्त हुई वस्तुको स्वयं न भोगा जाय तथा आपत्कालमें ब्राह्मणके सिवा किसी अन्यका धन ले लिया जाय तो भी चोरीका पाप नहीं लगता । अपने या किसी दूसरेके प्राणोंकी रक्षाके लिये, गृहके लिये, एकान्तमें स्त्रीके साथ अथवा विवाहके प्रसङ्गमें झूठ बोलनेसे भी पाप नहीं होता । यदि किसी कारणसे स्वप्नमें वीर्य स्वस्वित हो जाय तो इससे ब्रह्मचारीका व्रत भंग नहीं होता, किन्तु इसके लिये उसे प्रवर्तित अग्निमें पूतकी आहुतियाँ छोड़कर प्रायश्चित्त करना चाहिये । यदि बड़ा भाई पतित हो जाय या संन्यास ले ले तो छोटे भाईको विवाह करनेमें भी दोष नहीं है । अज्ञानवशा किसी अपात ब्राह्मणको दान देनेसे तथा योग्य ब्राह्मणका सत्कार न करनेमें भी कोई दोष नहीं लगता । रथभचारिणी स्त्रीका

तिरस्कार करनेमें भी कोई दोष नहीं है । ऐसा करनेसे तो उसकी शुद्धि ही होती है और उसका भरण-पोषण करनेवालेको दोष भी नहीं होता । जो सेवक काम-काज करनेमें असमर्थ है, उसे त्यागनेमें दोष नहीं है तथा गीओके लिये वनमें प्राग लगानेमें भी दोष नहीं माना जाता । राजन् ! ये सब तो मैंने वे कर्म बताया जिन्हें करनेसे कोई दोष नहीं होता । अब मैं विस्तारपूर्वक प्रायश्चित्तोंका वर्णन करता हूँ ।

राजन् ! कृच्छ्र-चण्ड्राण्यादि तप, अग्निहोत्रादि कर्म और दानके द्वारा मनुष्य तभी अपने पापसे छूट सकता है, जब वह फिर पापमें प्रवृत्त न हो । यदि किसीने ब्रह्महत्या की हो तो वह मिथा माँगकर एक समय भोजन करे, अपना सब काम स्वयं ही करे, हाथमें छप्पर और सट्टवाङ्ग (खटका पाया) रखे, नित्य ब्रह्मचर्यव्रतसे रहे, मिथा माँगनेके समय सर्वदा खड़ा रहे, किसीसे ईर्ष्या न करे, पृथ्वीपर शयन करे और स्तोकमें अपने कर्मको प्रकट करे । इस प्रकार बारह वर्षतक करनेसे उसकी शुद्धि हो जाती है । अथवा अपनी इच्छासे किसी शस्त्रधारी विद्वान्का निराणा बन जाय या जलतो हुई आगमें गिरे अथवा नीचेकी तिर किये किसी भी वेदका पाठ करनेसे हुए तीन बार सौ-सौ योजनकी यात्रा करे या किसी वेदज्ञ ब्राह्मणको अपना सर्वस्व संपर्ण कर दे, अथवा जिससे जीवनभर निर्वाह हो सके इतना धन या सब सामानसे भरा भूरा घर ब्राह्मणको दान करे । इस प्रकार गो और ब्राह्मणोंकी रक्षा करनेवाले पुरुषको ब्रह्महत्यासे मुक्ति हो सकती है । यदि कृच्छ्रव्रतके अनुसार भोजन करे तो छः वर्षोंमें, मासिक कृच्छ्रव्रतके अनुसार भोजन करनेसे तीन वर्षोंमें और एक-एक मासमें भोजनप्रमत्त परिवर्तन करते हुए अत्यन्त तीव्र कृच्छ्रव्रतके अनुसार अन्न ग्रहण करे तो एक वर्षमें ब्रह्महत्यासे छुटकारा हो सकता है ।* इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना

* तीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल और तीन दिन विना माँगें जो मिल जाय वह खा लेना तथा तीन दिन उपवास करना—इस प्रकार बारह दिनका कृच्छ्रव्रत होता है । इसी क्रममें छः वर्षतक रहनेमें ब्रह्महत्या छूट सकती है । यही व्रत यदि तीन-तीन दिनमें परिवर्तित न होकर सब मासोंमें एक-एक सप्ताहमें और विषम मासोंमें आठ-आठ दिनोंमें बदलते हुए एक-एक मासके कृच्छ्रव्रतके अनुसार चले तो तीन वर्षोंमें शुद्धि हो जायगी और यदि एक मास प्रातःकाल, एक मास मायंकाल और एक मास अयाचित भोजन तथा एक मास उपवास—इस प्रकार चार-चार मासके कृच्छ्रव्रतके अनुसार चले तो एक ही वर्षमें ब्रह्महत्याका पाप छूट सकता है ।—[नीमवन्दी]

चाहिये। इसी प्रकार यदि उपवास ही किया जाय तो और भी जल्दी शुद्धि हो सकती है। इसके सिवा अश्वमेध यज्ञसे भी निःसंदेह यह पाप छूट सकता है। श्रुतिका कथन है कि जो इस प्रकारके लोग अवभृथ (यज्ञान्त) स्नान करते हैं वे सभी सब प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मणके लिये युद्धमें प्राण दे देता है, वह भी ब्रह्महत्यासे छूट जाता है। ब्रह्महत्यारा होनेपर भी जो सुपात्र ब्राह्मणोंके एक लाख गौएँ दान देता है उसके तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य दूध देनेवाली पच्चीस हजार कपिला गौएँ सुपात्रोंको दान करता है, वह भी सब पापोंसे छूट जाता है। मरनेके समय दरिद्र और सत्पुरुषोंको बछड़ेवाली एक हजार दुधारू गौएँ देनेसे भी मनुष्य इस पापसे मुक्त हो सकता है। जो राजा सुपात्र ब्राह्मणोंको काम्बोज देशमें उत्पन्न हुए सौ घोड़े दान करता है, वह भी ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है। जो व्यक्ति किसी एक पुरुषको उसका मनोरथ पूर्ण होने योग्य दान देता है और फिर किसीके आगे उसको जिन्न नहीं करता वह भी पाप-मुक्त हो जाता है।

जलहीन देशमें पर्वतसे गिरकर और अग्निमें प्रवेश करके अथवा महाप्रस्थानकी विधिसे हिमालयमें गलकर प्राण दे देनेसे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। यदि किसी ब्राह्मणने मद्यपान किया हो तो वृहस्पतिसब याग करनेसे उसको शुद्धि हो जाती है। एक बार मद्य पीनेपर जो निष्कपट भावसे भूमिदान करता है और फिर कभी शराब नहीं छूता वह भी शुद्ध हो जाता है।

जो पुरुष गुरुपत्नीके साथ समागम करता है वह या तो जलती हुई लोहेकी शिलापर पड़ जाय या अपनी सूत्रेन्द्रियकी काटकर ऊपरकी ओर देखता हुआ दूरतक चला जाय। इसके सिवा, अपना शरीर त्याग देनेसे भी वह इस पापसे छूट सकता है। अथवा जो महाव्रतका (एक महीनेतक जल भी न पीनेके नियमका) पालन करता है, ब्राह्मणोंको अपना सर्वस्व दे देता है या गुरुके लिये युद्धमें प्राण होम देता है वह भी इस पापसे मुक्त हो जाता है। झूठ बोलकर आजोविका चलानेवाला अथवा गुरुका अपमान करनेवाला पुरुष गुरुजीको मनचाही वस्तु देकर प्रसन्न कर लेनेसे उस पापसे छूट जाता है। जिसका ब्रह्मचर्यव्रत खण्डित हो गया हो, उसे ब्रह्महत्याके लिये व्रतापा हुआ प्रायश्चित्त करना चाहिये। अथवा छः महीनेतक शरीरपर गौका चमड़ा ओढ़नेसे वह उस पापसे छूट सकता है।

यदि कोई मनुष्य किसीका धन चुरा ले तो किसी-न-किसी

उपायसे उसे उतना ही धन लौटा देनेसे वह उस पापसे मुक्त हो सकता है। बड़े भाईके अविवाहित रहते हुए विवाह करनेवाला छोटा भाई और उसका बड़ा भाई ये दोनों संयमपूर्वक वारह दिनका कृच्छ्रव्रत करनेसे पवित्र हो जाते हैं। इसके सिवा, यदि वह छोटा भाई बड़े भाईके विवाह कर लेनेपर अपनी विवाहिता स्त्रीके साथ फिर विवाहसंस्कार करा ले तो इससे भी उक्त दोष निवृत्त हो जाता है और उसके पितरोंका भी उद्धार होनेमें सहायता मिलती है तथा ऐसा करनेसे स्त्रीको भी कोई दोष नहीं होता। यदि अपनी स्त्रीके प्रति किसी प्रकारके पापाचरणकी शङ्का हो तो पुनः रजस्वला होकर स्नान करने तक उसका समागम न करे। भस्मसे जैसे वर्तन साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार रजःशुद्धिसे स्त्री शुद्ध हो जाती है। पशु-पक्षियोंका वध करनेवाला तथा तरह-तरहके बहुतसे पेड़ोंको काटनेवाला पुरुष तीन दिनतक वायु भक्षण करे और लोगोंके सामने अपना कुकर्म प्रकट कर दे। इससे वह शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष किसी प्रकारकी हिंसा नहीं करता, राग-द्वेष एवं मानापमानसे शून्य है, विशेष भाषण नहीं करता और मिताहार करते हुए पवित्र और एकान्त देशमें रहकर गायत्रीका जप करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। अन्य सब प्रकारके पापोंकी शुद्धिके लिये भी ब्राह्मणोंने धर्माधर्मके निर्णयमें प्रमाणभूत शास्त्रोंके कथनसे यही विधि निश्चित की है। जो पुरुष दिनमें आकाशकी ओर वृष्टि रखता है, रात्रिमें खुले मैदानमें सोता है, तीन बार दिनमें और तीन बार रात्रिमें वस्त्रों-सहित जलमें घुसकर स्नान करता है और इस व्रतका पालन करते समय स्त्री, शूद्र और पतितसे बात नहीं करता वह अज्ञानवश किये हुए सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। मनुष्यको अपने किये हुए शुभ या अशुभ कर्मका फल मरनेके बाद भोगना पड़ता है। इनमें जिसकी अधिकता होती है, उसीका फल उसे मिलता है। इसलिये दान, तप और शुभ कर्मोंके द्वारा पुण्यकी ही वृद्धि करनी चाहिये, जिससे वह पापको दबाकर स्वयं बढ़ सके। सर्वदा शुभ कर्मोंका आचरण करे, पापकर्मसे दूर रहे और सुपात्रको धन दान करे—ऐसा करनेसे मनुष्य पापसे मुक्त हो जाता है।

राजन् ! इसी प्रकार विवेकी पुरुषके लिये भक्ष्य और अभक्ष्य, वाच्य और अवाच्य तथा जान-बूझकर और बिना जाने किये हुए पापोंके भी प्रायश्चित्त बताये हैं। जो पाप जान-बूझकर किया जाता है वह बड़ा होता है और अनजानमें किया हुआ पाप छोटा माना जाता है। ऊपर कही हुई विधिये पापकी निवृत्ति हो सकती है। जो आस्तिक और

धदानु है, उसीके लिये यह विधि बड़ी गयी है। नान्तिक अथद्वालु और दम्भ एवं द्वेषप्रधान पुरुषोंके लिये इसका कोई उपयोग नहीं है। जो पुरुष मरकर मुझ भोगना चाहता है, उसे धोष्ट पुरुषोंके आचरण और धर्मका सेवन करना चाहिये। राजन् ! तुमने अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये

अथवा स्वधर्मका पालन करनेके लिये ही इनका वध किया है; इसलिये तुम तो इतने ही कारणसे इन पापसे सबंधा भुक्त हो जाओगे। फिर भी यदि तुम्हें कुछ परचाताप है तो प्रायश्चित्त करो। इस प्रकार अनार्य पुरुषोंकी तरह रोपमें भरकर अपना नाश मत करो।

प्रायश्चित्तयोग्य कर्म, अन्नकी अशुद्धि और दानके अनधिकारीके विषयमें स्वाम्भुव मनुका प्रसंग

ध्यासजी बोले—राजन् ! इस विषयमें एक पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार बहूतसे तपस्वी ऋषि एकत्रित होकर स्वाम्भुव मनुके पास गये और उनसे धर्मका स्वल्प पूछते हुए बोले, 'दान, अध्ययन, तप, कार्य और अकार्य इनका क्या स्वरूप है ?'

उनके इस प्रकार पूछनेपर मनुजीने कहा—मैं संक्षेप और विस्तारसे धर्मका यथार्थ स्वरूप बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुनें। शास्त्रमें जिन पापोंके प्रायश्चित्तका उल्लेख नहीं है, उनको निवृत्तिके लिये मन्त्र-जप, होम और उपवास करे, आत्मज्ञान प्राप्त करे, पवित्र नदियोंमें स्नान करे और जहाँ प्रायश्चित्त करनेवाले लोग रहते हो उन स्थानोंमें रहे। इन पुण्यकर्मोंसे, ब्रह्मगिरि आदि पवित्र पर्वतोंपर रहनेसे, सुवर्ण भक्षण करनेसे, जिनमें रत्न हो उन नदियों या सरोवरों में स्नान करनेसे, देवस्थानोंमें जानेसे और घृत पान करनेसे अवश्य ही मनुष्यकी तत्काल शुद्धि हो जाती है। मनुष्यको कमी गम्यं नहीं करना चाहिये और यदि दोषार्थको इच्छा हो तो तत्तच्छुद्धतकी विधिसे तीन दिनतक गम्यं दूध, घृत और जलका सेवन करना चाहिये।

बिना बी हुई वस्तुको न लेना, दान, अध्ययन और तपमें तत्पर रहना, अहिंसा, सत्य, अन्नोद्य और यज्ञ—ये सब धर्मके लक्षण हैं। एक ही क्रिया देश और कालके भेदसे धर्म या अधर्म हो जाती है। चोरी करना, भ्रूट बोलना, हिंसा करना आदि अधर्म भी अवस्थाविशेषमें धर्म माने जाते हैं। विवेकी लोग जानते हैं कि धर्म और अधर्म ये दोनों ही देशकालके विचारसे अधर्म और धर्म दोनों हो सकते हैं। लोक और वेदमें धर्मके दो भेद हैं—प्रवृत्तिधर्म और निवृत्तिधर्म। इनमें निवृत्तिधर्मका फल मोक्षरूप भूतत्व है और प्रवृत्तिधर्मका फल जन्म-मरण है। अशुभ कर्मसे अशुभ फल मिलता है और शुभ कर्मसे शुभ। फलोंकी शुभाशुभताके कारण ही इन दो प्रकारके कर्मोंकी शुभ या अशुभ कहते हैं।

यदि जान-बूझकर कोई अशुभ कर्म हो जाय तो उसके लिये शास्त्रने प्रायश्चित्तका विधान किया है। राजा यदि दण्डनीय पुरुषको दण्ड न दे तो उसे उसकी शुद्धिके लिये एक दिन-रातका उपवास करना चाहिये और यदि पुरोहित राजाको धर्मोपदेशन करे तो उसकी शुद्धि तीन दिन उपवास करनेसे होती है। किन्तु जो पुरुष अपनी जाति, आश्रय या कुलके धर्मको त्याग देते हैं, उनकी शुद्धि किसी प्रायश्चित्तमें नहीं हो सकती। यदि धर्मनिर्णयमें कोई विवाद हो तो घेद और धर्मशास्त्रको जाननेवाले दस या तीन ब्राह्मणोंको बुलाकर उनसे उसका निर्णय करावे और वे जैसा कहें वैसा करे।

अब अन्नके विषयमें विचार करते हैं। प्रेतके निमित्त बनाया हुआ अन्न, मृतिकाका अन्न दस दिनसे पूर्व नहीं खाना चाहिये, इसी प्रकार स्याई हुई गौका दूध भी दस दिनतक न पीये। राजाका अन्न तेजको नष्ट करता है, शूद्रका अन्न ब्रह्मतेजका नाशक है तथा सुनार और पति या पुत्रहीना स्त्रोका अन्न आयुका क्षय करता है। ध्याजलोरका अन्न विष्ठाके समान है और वेश्याका बोयके समान। कायर, यज्ञविरंता, बड़ई, मोची, व्यभिचारिणी स्त्री, घोषी, घंट और चौकीदार इन सबका अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिन्हें सभाज या गाँवने बोधो ठहराया हो, जो नरतीके द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं और जिन्होंने अपने बड़े भाईके अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लिया हो, उनका तथा कन्योजन और जुआरियोंका अन्न भी मलाघ है। जो वायें हायसे लाया गया हो, जो बासी हो, जिसपर मक्खे छिटे पड़ गये हों, जो जूठा हो और जिसे कुटुम्बसे छिपाकर अपने लिये रक्खा हो वह अन्न खाने योग्य नहीं होता। इसी प्रकार जो पदार्थ आटे, ईस, शाक या दूधको घिगाड़कर बनाये गये हो वे भी नहीं खाने चाहिये। सत्तु, जीने लोने और दहीमें मिले हुए सत्तु वे अधिक देरके हो जानेपर खाने योग्य नहीं रहते। तौर, खिचड़ी और मान्द्रूप यदि बेक

उद्देश्यसे न बनाये जायें तो नहीं खाने चाहिये, गृहस्थ पुरुष देवता, ऋषि, अतिथि, पितर और कुलदेवताओंको नैवेद्य समर्पण करनेके बाद ही भोजन कर सकता है। उसे घरमें भी संन्यासीके समान अनासक्त-भावसे ही रहना चाहिये। जो अपनी अनुकूल स्त्रीके साथ इस प्रकार घरमें रहता है, वह धर्मका पूरा फल प्राप्त कर लेता है।

धर्मात्मा पुरुषको चाहिये कि यशके लोभसे, भयके कारण अथवा अपना उपकार करनेवालेको दान न दे। जो नाचने-गानेवाले, हँसी-मजाक करनेवाले (भाँड़ आदि), मदमत्त, उन्मत्त, चोर, निन्दा करनेवाले, गूंगे, तेजोहीन, अङ्गहीन, बौने, दुष्ट, कुलहीन या संस्कारशून्य हों, उन्हें भी दान न दे। जिसने वेदाध्ययन न किया हो उस ब्राह्मणको दान देना उचित नहीं है। विधिहीन दान देना या दान लेना दोनों ही ठीक नहीं हैं। ऐसा करनेसे दान देनेवाले और दान लेनेवाले दोनोंहीकी हानि होती है। जिस प्रकार खरकी लकड़ी या पत्थरकी शिलाका आश्रय लेकर समुद्र पार करनेवाला व्यक्ति बीचहीमें डूब जाता है, उसी प्रकार ऐसे दाता और गृहीता दोनों ही नरकमें डूबते हैं। जिस प्रकार लकड़ी गीली होनेपर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार जिस दान लेनेवालेमें तप, स्वाध्याय और सदाचारका

अभाव होता है वह अच्छा नहीं जान पड़ता। जिस प्रकार मनुष्यकी खोंपड़ीमें भरा हुआ जल और कुत्तेकी खालमें भरा हुआ दूध अपने आश्रयके दोषसे अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार दुराचारीके संसर्गसे शास्त्राभ्यास दूषित हो जाता है। जो ब्राह्मण वेदहीन और अशास्त्रज्ञ होते हुए भी संतोषी और दूसरेके गुणोंमें दोष न देखनेवाला है, उसे दया करके ही दान देना चाहिये। उन्हें देना शिष्टोंका आचार है अथवा ऐसा करनेसे पुण्य होता है—यह समझकर उन्हें कुछ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसे लकड़ीका हाथी और चामका हरिण ये नाममात्रके ही होते हैं, उसी प्रकार बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण भी केवल नामका ही होता है। जिस प्रकार जलहीन कुआँ और राखमें किया हुआ हवन व्यर्थ होता है, उसी प्रकार मूलको दिया हुआ दान भी निष्फल है। दान लेनेवाला मूर्ख तो दाताका शत्रु है, वह उसका धन हरण करता है और देवता एवं पितरोंके हव्य-कव्यका नाश करता है। उसे दान देनेवाला पुण्य लोकोको प्राप्त नहीं कर सकता। युधिष्ठिर! तुमने जो पूछा था उसके अनुसार मैंने संक्षेपमें स्वायम्भुव मनुका यह पूरा प्रसंग सुना दिया। यह महत्त्वशाली प्रसंग सभी कल्याणकामियोंको सुनना चाहिये।

व्यासजी और भगवान् श्रीकृष्णकी सलाहसे महाराज युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमें आना

राजा युधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर! मैं राजाओंके और चारों वर्णोंके धर्मोंको विस्तारसे सुनना चाहता हूँ। कृपया बताइये कि आपत्तिके समय इन्हें किस नीतिसे काम लेना चाहिये। आपने प्रायश्चित्तोंके विषयमें मुझे जो कुछ सुनाया है, उससे मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है।

व्यासजी बोले—युधिष्ठिर! यदि तुम धर्मका पूरा-पूरा रहस्य सुनना चाहते हो तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्मके पास जाओ। वे गङ्गाजीके पुत्र सर्वज्ञ और सब प्रकारके धर्मका मर्म जाननेवाले हैं; इसलिये धर्मके विषयमें तुम्हारे मनमें जितनी शङ्काएँ हों, उन सभीका वे समाधान कर देंगे। जिस धर्मशास्त्रको शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पतिजी जानते हैं, उसीको कुरुश्रेष्ठ भीष्मजीने शुक्राचार्य और च्यवनजीसे पूरे विवरणके साथ प्राप्त किया है। उन्होंने ब्रह्मचर्यव्रतकी दीक्षा लेकर वसिष्ठजीसे अङ्गोपाङ्गसहित वेदोंका अध्ययन किया है, ब्रह्माजीके ज्येष्ठ पुत्र परमतेजस्वी सनत्कुमारजीसे अध्यात्मविद्या पायी है, मार्कण्डेयजीसे पूर्णतया यतिधर्म सीखा है तथा परशुरामजी और इन्द्रसे

अस्त्रविद्या पायी है। मनुष्योंमें उत्पन्न होकर भी मृत्युको उन्होंने इच्छाके अधीन कर लिया है। पवित्रचरित्र ब्रह्माविषण उनके समासद् थे। जब कभी ज्ञानयज्ञ होते थे तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती थी, जिसे वे न जानते रहे हों। वे धर्म और अर्थका सूक्ष्म तत्त्व जानते हैं, वे ही तुम्हें धर्मका उपदेश करेंगे। अब कुछ ही समयमें वे प्राण छोड़नेवाले हैं। अतः तुम उनके प्राणपरित्यागके पहले ही उनके पास पहुँच जाओ।

युधिष्ठिर बोले—भगवन्! मैंने तो अपने बन्धु-बान्धवोंका बड़ा भीषण और रोमाञ्चकारी संहार किया है। मैं सभी लोकोका अपराधी और पृथ्वीका सत्यानाश करनेवाला हूँ। यही नहीं, वे सदा ही निष्कपटभावसे युद्ध करते रहे हैं, किंतु मैंने छलसे उनका संहार कराया है। ऐसी स्थितिमें मैं किस प्रकार उन्हें अपना मुँह दिखा सकता हूँ?

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजा युधिष्ठिरकी यह बात सुननेपर यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णने चारों वर्णोंके हितकी कामनासे उनसे कहा, 'नृपश्रेष्ठ! अब आप शोकको ही न पकड़े रहें।

भगवान् व्यास जंता कह रहे हैं, वैसा ही करें। ये अनुसित तेजस्वी और आपके गुरुके समान हैं, इनकी आज्ञा मानकर आप ब्राह्मणोंका, अपने सुहृद् हमलोंगोंका, द्रोपदीका और सम्पूर्ण सौकोंका हित करें।

श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर महामना महाराज युधिष्ठिर सब सौकोंके हितके लिये अपने आसनसे उठे। वे वेद, उपनिषद्, भीमांसा और नीति आदि सभी शास्त्रोंमें पारंगत थे। इस समय अपना कर्तव्य निश्चय करके उन्हें बड़ी शान्ति मिली। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्रकी आगे किया और श्रीकृष्ण आदि सब बन्धु-बान्धवोंके साथ हस्तिनापुरमें आये। नगरमें प्रवेश करते समय उन्होंने देवताओंका तथा हजारों ब्राह्मणोंका पूजन किया। वे सफेद रंगके सोहल बंलोसे जुते हुए एक नवीन रथमें सवार हुए। वह रथ ऊनो यस्त्र और चमड़ेसे मँदा हुआ था तथा श्वेत



पंका था। उस समय महापराक्रमी कुन्तीनन्दन भीमसे बंलोकी बागडोर संभाली, अर्जुनने शान्तिमान् श्वेत छत्र लिया तथा माद्रीनन्दन नकुल और सहदेव चेंबर और पंला इताने लगे। इस प्रकार जब पाँचों भाई सज-धजके साथ रथपर सवार हुए तो ऐसे मालूम होते थे मानो पाँचों भूत ही मूर्तिमान् होकर इकट्ठे हो गये हैं। महाराज युधिष्ठिरके पीछे एक रथपर युयुत्सु चला। इन कौरव और पाण्डवोंके बाद संभ्य और गुपीय नामके घोड़ोंसे जुते हुए

एक सुवर्णमय रथपर चड्कर सात्यकिके सहित प्रगवात् श्रीकृष्ण चल रहे थे। धर्मराजके आगे एक पातकीमें उनके ज्येष्ठ विन्ध्य महाराज धृतराष्ट्र गांधारीके साथ जा रहे थे। इन सबके पीछे कुन्ती और द्रोपदी आदि कुचकुलकी स्त्रियाँ अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सवारियोंपर चड्कर चल रही थीं। इनकी देवभ्रातृमें विदुरजी थे, वे इनके पीछे चल रहे थे। उनके पीछे सब प्रकारके साज-बाजसे सुसज्जित अनेको रथ, हाथी, घुड़सवार और पंखसोंकी पलटन थी। इस प्रकार मृत, मागध और बंतालिकोसे स्तुति मुनते हुए महाराज युधिष्ठिरने नगरमें प्रवेश किया। उनकी यह सवारी संसारमें अत्युत्तम थी।

जिस समय हस्तिनापुरमें धर्मराजको सवारी निकली, वहाँके नागरिकोंने सारे नगर और राजमार्गोंको खूब सजाया था। सड़कोंपर सफेद रंगके फूल बिखरे हुए थे, अनेको ध्वजा-पताकाएँ लगायी गयी थीं तथा उन्हें अच्छी तरहसे साफ करके धूपसे सुगन्धित किया गया था। राजमहलको सुगन्धित द्रव्योंके चूरेसे, तरह-तरहके पुष्पोंसे और पुष्पोंकी बन्दनवारोंसे छा दिया गया था। नगरके द्वारपर जलते भरे हुए नवीन कलस रखे हुए थे तथा जहाँ-जहाँ श्वेत धणोंके फूलोंके गुच्छे लगाये गये थे। सब ओरसे मुमनोह्र स्तुति-वाच्य मुनायी पड़ रहे थे। इस प्रकार अपने सुहृदोंके साथ महाराज युधिष्ठिरने खूब सजे-धजे हस्तिनापुरमें प्रवेश किया।

पाण्डवोंके पुरप्रवेशके समय सहस्रों पुरवासी उन्हें देखतेके लिये इकट्ठे हो गये। उस समय अनेकों पुरनारियाँ पाँचों भाइयोंको प्रसंसा कर रही थीं। वे सज्जायस घोरे-घोरे कहने लगीं, 'पाण्डवात्कुमारी! तुम धन्य हो, जो तुम्हें इन पुरयश्रेष्ठोंकी सेवाका मुभयसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारे सभी पुण्यकर्म और व्रत सकल हैं।' उनके ऐसे प्रसंसावाच्योंसे और आपसके प्रेमात्मकते उस समय सारा नगर गूँज रहा था।

इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर घोरे-घोरे राजमार्गसे निकलकर महलके द्वारपर आये। तब सब दरबारी, नगर-निवासी और देगके लोग उनके सामने आये और प्रणाम करके तरह-तरहकी बातोंको अच्छी लगनेवाली बानें बहने लगे। वे बोले, 'महाराज! बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपने धर्म और बलके प्रभावसे पुनः अपना सौपा हुआ राज्य पा लिया है। आप सो बंधंतक हमारे राजा रहें और धर्मपूर्वक प्रजाका पासन करें।' इस प्रकार राजद्वारपर माद्गनिक बचनोंमें उनका सभीने सन्चार किया। तथा ब्राह्मणोंने भी आशीर्वाद दिये। उन सबको यथायोग्य

वीकार कर महाराज स्वयं उतरे और फिर राजमन्त्रों में घाते । महत्के भीतरी भागमें जाकर उन्होंने कुलदेवताओंका अर्घ्य किया और रत्न, चन्दन तथा माला आदिसे उनकी पूजा की । इसके बाद वे फिर महत्के बाहर आये और वहाँ लोगोंमें माझुलिक द्रव्य लिये खड़े हुए ब्राह्मणोंके अर्घ्य किये । जब महाराजने गृह धीम्य और राजा धृतराष्ट्रको आगे खकर उनकी पुण्य, मोदक, रत्न, सुवर्ण, गौ और वस्त्रादिसे विधिवत् पूजा की । मेवकलोग ब्राह्मणोंने यह पूछ-पूछकर के जानकी क्या इच्छा है, उन्हें अनौष्ट पदार्थ देते थे । इसके बाद पुण्याहवाचनका योग हुआ । उससे मात्र आकाश ही उठा । वह गृहद्वारके लिये आनन्ददायक, परम पवित्र और कारुणिको मुख देनेवाला था । इसी समय सब ओर जयकी घोषणा करते हुए गङ्गा और दुन्दुभिर्षोंका मनोरम शब्द होने लगा ।

इतनेमें ब्राह्मणके वेषमें छिपे हुए राजस चावार्कने कहा, 'युधिष्ठिर ! इस समय मैं इन सब ब्राह्मणोंकी ओरसे शोक रहा हूँ । तुम्हें धिक्कार है । तुम बड़े दुष्ट राजा हो ! तुमने अपने दम्पत्योगियोंकी हत्या की है । अपने गुरुजनोंको नरबाकर तो अब तुम्हारा भर जाना ही अच्छा है । इस प्रकारका जीवन किस कामका ?'

महाराज युधिष्ठिरका अभिषेक, उनकी राज्यव्यवस्था तथा उनके द्वारा सम्बन्धियोंके श्राद्ध

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! अब महाराज युधिष्ठिर रोप और संतानसे मुक्त होकर पूर्वकी ओर मुख करके सुवर्णके सुन्दर सिंहासनपर विराजमान हुए । उन्हींकी ओर मुख करके एक चमचमाते हुए सोनेके सिंहासनपर सत्यकि और श्रीकृष्ण बैठे तथा महाराजके दोनों ओर दो मणिमय पीठोंपर भौमसेन और अर्जुन सुगोमित हुए । एक ओर सुवर्णजडित हाथोर्वातके आसनपर नकुल और सहदेवके सहित माना कुली बैठे । इसी प्रकार कीरवीके पुरोहित सुधर्मा, विदुर, धीम्य और कुहराज धृतराष्ट्र भी अलग-अलग सुन्दर सिंहासनोंपर विराजमान हुए । जहाँ महाराज धृतराष्ट्र थे उधर ही द्रुपद, सञ्जय और गान्धारी ने भी आसन लगाया ।

महाराज युधिष्ठिरने सिंहासनपर बैठकर श्वेत पुण्य अक्षत, मूँमि, सुवर्ण, रजत और मणिपोंको स्पर्श किया । सिंहासनके पान मुक्तिका, सुवर्ण, तर्ह-तरहके रत्न, सर्वाँषधसे युक्त अभिषेकके पात्र, जलसे भरे हुए ताँबे, चाँदी और मिट्टीके बरतन, पुष्प, लता, धान, गोरस, गन्नी,

उमकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े ही लज्जित और व्याकुल हुए । प्रतिवाचके रूपमें उनके मुखसे एक भी शब्द न निकला । उन्होंने कहा, 'विप्रगण ! मैं अत्यन्त विनीत होकर आपसे श्रायना कर रहा हूँ । आप मुझपर प्रसन्न होइये । इन समय मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति है, ऐसे समय आपका मुझे धिक्कारना उचित नहीं है ।'

युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर सब ब्राह्मण बोल उठे, 'महाराज ! यह हमारा बात नहीं कह रहा है । हम तो आशीर्वाद देते हैं कि आपकी राजसभ्या सदा बनी रहे ।' फिर उन महात्माओंने जानबूझिसे उसे पहचान लिया और राजा युधिष्ठिरसे कहा, 'यह दुर्योधनका मित्र चावार्क नामका राजस है । इस समय सत्यासौता बंध बनाकर उसका हित करना चाहता है । धर्मात्मन् ! हम तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कहते । तुम्हारा और तुम्हारे भाइयोंका कल्याण हो ।' राजन् ! उसके बाद उन सब ब्राह्मणोंने क्रोधमें भरकर हुंकार करते हुए उस राजसको मार डाला । उनके तेजसे वह मस्म होकर गिर गया । राजाने उन सबकी पूजा की । वे उसका अनितन्दन करने हुए वहाँसे विदा हुए । इससे महाराज युधिष्ठिर और उनके सम्बन्धियोंकी भी बड़ी प्रसन्नता हुई ।

पीपल और पलाशकी समिधाएँ, मधु, घृत, गूलरका तृवा और गङ्गा—यह सब सामग्री एकत्रित की गयी । फिर श्रीकृष्णकी आज्ञामें पुरोहित धीम्यने पूर्व और उत्तरके कोणमें नाँबे स्थानपर गास्त्रोक्त विधिसे वेदी बनायी । इसके बाद सर्वतोमद्र आसनपर महाराज युधिष्ठिर और शीपवीको बैठकर उनसे वेदके मन्त्रोंद्वारा विधिपूर्वक हवन कराया । अब भगवान् श्रीकृष्ण खड़े हुए और उन्होंने पाञ्चजन्य शङ्खमें जल भरकर धर्मराजका अभिषेक किया । फिर उन्हींके कहनेसे राजापि धृतराष्ट्र तथा सब दरबारियोंने भी पाञ्चजन्यके द्वारा ही उनको अभिषेक किया ।

अभिषेक होते ही नक्कारों और नकीरियोंका शब्द होने लगा । महाराजने धर्मानुसार प्रजाकी सब भेंटें स्वीकार कीं और उसे बहूतसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया । इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर उन्हें हजारों मुहरें दक्षिणामें दीं । ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर उन्हें 'मङ्गल हो, जय हो' ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया । फिर उन्होंने महाराजकी प्रशंसा करते हुए कहा, 'राजन् ! बड़े भाग्यकी

बात है आपको विजय प्राप्त हुई। आप अपने पराक्रमसे धर्मकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए। यह प्रजाका सीमाय ही था कि आप, भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेव अबतक सकुशल रहे। अब आप शीघ्र ही भावी कार्यक्रमकी अपने हाथमें लें। इसके बाद समागत सज्जनोंने धर्मराज युधिष्ठिरका सत्कार किया और उन्होंने अपने सम्बन्धियोंके सहयोगसे उस विशाल साध्राज्यका भार अपने हाथोंमें ले लिया।

प्रजाके अभिनन्दनका उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिरने कहा, 'महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं। हमारे लिये ये इष्टदेवके समान हैं। जो लोग मेरा प्रिय करना चाहें, उन्हें इनकी आज्ञामें रहना चाहिये और इन्हें जो कुछ अच्छा लगे, वही करना चाहिये। मेरा भी प्रधान कर्तव्य सर्वदा सावधानीसे इनकी सेवा करना ही है। यदि आपलोग मेरे ऊपर कोई कृपा करना चाहते हैं तो मैं वही मित्रा मांगता हूँ कि इनके प्रति पहलेहीके समान सम्मानका भाव रखें। मेरे, आपके और सारी पुण्योके स्वामी ये ही हैं। यह सारा राष्ट्र और पाण्डवलोग इन्हींके हैं। आप सब लोग मेरी यह प्रार्थना हृदयसे स्वीकार करें।'

इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिरने सभी पुरवासी और देशवासियोंको विदा किया तथा भीमसेनको युवराज बनाया। महामति विदुरजोका राजकाज-सम्बन्धी सलाह देनेका, निश्चय करनेका तथा संधि, विग्रह, प्रत्याग, स्थिति, आश्रय और द्वंद्वोभाव—इन छः बातोंको निर्णय करनेका अधिकार सौंपा। क्या काम करना है और क्या नहीं करना—इसका विचार तथा आय-व्ययका निश्चय करनेके कार्यपर उन्होंने सर्वगुण-सम्पन्न यथोक्त सज्जनोंको नियुक्त किया। सेनाको गणना करना, उसे भोजन और वेतन देना तथा उसके कामकी देख-भाल करना उन्होंने नकुलके जिम्मे किया। शत्रुके देशपर चढ़ाई करने तथा दुष्टोंको दमन करनेके कामपर अर्जुनकी नियुक्ति की। ब्राह्मण और देवताओंके कामपर तथा पुरोहितोंके दूसरे कामोंपर महर्षि घोम्य नियुक्त हुए। सहदेवको अपने साथ रखवा। उनको सब समय राजाकी

रक्षाका काम सौंपा गया। राजाने जिन-जिन लोगोंको जिस-जिस कामके योग्य समझा, उन-उनको उसी-उसी कार्यपर नियुक्त किया। उन्होंने विदुर, सज्जय और युप्युस्तुसे कहा—'आप सब लोग सदा सावधान रहकर प्रतिदिन मेरे इन युद्ध पिता राजा धृतराष्ट्रकी सेवा करें। इनका जो भी काम हो, उसे ठीक-ठीक पूरा करना चाहिये। इस नगर और प्रान्तमें रहनेवाले लोगोंके भी जो कुछ कार्य हों, उन्हें इन्हीं महाराजकी आज्ञा लेकर पूर्ण करना चाहिये।'

वंशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने युद्धमें मरे हुए अपने कुटुम्बियोंके अलग-अलग श्राद्ध करवाये। धृतराष्ट्रने अपने पुत्रोंके श्राद्धमें अन्न, धन, गोरों तथा बहुमूल्य रत्न दान किये। स्वयं राजा युधिष्ठिरने द्रौपदीकी साथ लेकर द्रोण, कर्ण, धृष्टद्युम्न, अमिमग्न्य, घटोत्कच, विराट आदि मित्र राजाओं तथा द्रुपद एवं द्रौपदीकुमारोंका श्राद्ध किया। प्रत्येकके उद्देश्यसे उन्होंने हजारों ब्राह्मणोंको अलग-अलग धन, रत्न, गौ एवं वस्त्र देकर संतुष्ट किया। इनके सिवा जिन राजाओंके कोई पुत्र आदि सम्बन्धी जीवित नहीं थे, उनका भी श्राद्ध सम्पन्न किया। अपने हितैषी सम्बन्धियोंके उद्देश्यसे उन्होंने अनेकों धर्मसाधनों, प्याऊघर तथा पोखरे बनवाये। इस प्रकार सबके भीर्ष-बैहिक संस्कार करके वे उनके ऋणोंसे मुक्त हुए और धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए कृतार्थताका अनुभव करने लगे। धृतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर तथा अग्य आदरणीय कौरवोंकी वे पहलेकी ही भाँति सेवा करते और श्रेष्ठ भृत्योंका भी सम्मान किया करते थे। जिनके पति और पुत्र रणभूमिमें मारे गये थे, कुरुवंशको उन सम्पूर्ण स्त्रियोंको वे बड़े सम्मानके साथ रखते और दयानु स्वभाव होनेके कारण उनके भरण-पोषणका सदा ख्याल रखते थे। दान-भूमि, अंधों तथा अनार्योंके रहनेके लिये घर बनवाते और उन्हें भोजन एवं वस्त्रकी भी सहायता देते थे। सबके साथ कोमलताका बर्ताव करते हुए वे सबके ऊपर कृपा रखते थे।

युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, भाइयों और कुटुम्बियोंका सत्कार तथा नाना प्रकारके दान

वंशम्पायनजी कहते हैं—युधिष्ठिरका राज्याभिषेक हो जानेपर वे भगवान् श्रीकृष्णसे हाथ जोड़कर बोले—'भगवन्! आपको ही कृपा, नीति, बल, बुद्धि और पराक्रमसे मुझे अपने प्राण-दायको यह राज्य प्राप्त हुआ है। कमलतोचन! मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ।

पवित्र अन्तःकरणवाले ब्राह्मण आपकी अनेकों नामोंद्वारा स्तुति किया करते हैं। यह सम्पूर्ण विश्व आपकी सीमा है, आपहीसे इनकी उत्पत्ति हुई है और आप ही इसके आत्मा हैं; आपको सादर नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक होनेके कारण विष्णु और विजयी हो

कहलाते हैं। हरे! आप ही सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण, त्रिकुण्डधामके अधिपति वैकुण्ठ और क्षर-अक्षर पुरुषसे उत्तम पुरुषोत्तम हैं। आप पुराणपुरुष परमात्माने ही सात बार अदितिके गर्भसे अवतार लिया है।* आप ही पृथिनगर्भके नामसे प्रसिद्ध हैं। विद्वान् लोग तीनों युगोंमें प्रकट होनेके कारण आपको त्रियुग कहते हैं। आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, आप इन्द्रियोंके प्रेरक और यज्ञस्वरूप हैं। आप हंस (शुद्ध आत्मा) कहलाते हैं। तीन नेत्रोंवाले भगवान् शंकर और आप एक ही हैं। आप ही विभु तथा दामोदर हैं। बाराह, अग्नि, बृहद्भानु (सूर्य), वृषभ (धर्म), गरुडध्वज, अनीकसाह (शत्रुसेनाका वेग सह सकनेवाले), पुरुष (अन्तर्पामी), शिपिविष्ट, यज्ञप्रति और उरुक्रम (वामन) आदि आपहीके नाम हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और उग्रसेनापति हैं। सत्यस्वरूप, अन्नदाता तथा स्वामी कार्तिकेय भी आप ही हैं। आप स्वयं रण से कमी भी विचलित न होकर शत्रुओंको पीछे हटानेवाले हैं। वैदिक संस्कारोंसे युक्त द्विज और संस्कारशून्य द्विजेतर मनुष्य भी आपहीके स्वरूप हैं। आप ही कामनाओंको वर्षा करनेवाले वृष (धर्म) हैं। कृष्णधर्म (यज्ञस्वरूप), वृषदर्म (इन्द्रका दम् दलन करनेवाले) और वृषाकपि (हरि-हर) भी आप ही हैं। आप ही सिन्धु (समुद्र), निर्गुण परमात्मा तथा सूर्य, चन्द्र एवं अग्निरूप त्रिविध तेज हैं; ऊपर, नीचे और मध्य—ये तीन दिशाएँ भी आप ही हैं। आपने अपने वैकुण्ठधामसे आकर इस पृथ्वीपर अवतार धारण किया है। आप सभ्राट्, विराट्, स्वराट् और देवराज इन्द्र हैं। यह संसार आपहीसे प्रकट हुआ है। आप सर्वत्र व्यपक, नित्य सत्त्वरूप और निराकार परमात्मा हैं। आप ही कृष्ण (सबको अपनी ओर खींचनेवाले) और कृष्णवर्त्मा (अग्नि) हैं। आपहीको लोग अभीष्टसाधक, अश्विनकुमाराओंके पिता, कपिल मुनि, वामन, यज्ञ, ध्रुव, गरुड तथा यज्ञसेन कहते हैं। आप मीर-पंखधारी और प्राणियोंको मायासे बाँधनेवाले हैं। आप ही सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त करनेवाले महेश्वर और पुनर्वसु नक्षत्र हैं। सुवश्रु (अत्यन्त पिङ्गलवर्ण), रुक्मध्वज, सुषेण, कुन्दुभि, गभस्तिर्नेमि (कालचक्र), श्रीपद्म, पुष्कर, पुष्पधारी, ऋषु, विभु, अत्यन्त सूक्ष्म और सदाचारी—इन

* आदित्य और वामनके रूपमें दो बार साक्षात् अदितिके गर्भसे और पृथिनगर्भ, परशुराम, श्रीराम, बलराम और श्रीकृष्णके रूपमें पाँच बार उनके जन्मान्तर्गत पृथिन आदि अन्य रूपोंके गर्भसे यहाँ भगवान्‌के प्राकट्यकी बात कही गयी है।

नामोंसे आपका ही कीर्तन किया जाता है। आप ही जलनिधि समुद्र, ब्रह्मा, पवित्र धाम तथा धामके ज्ञाता हैं। केशव! विद्वान् पुरुष आपको ही हिरण्यगर्भ तथा स्वधा, स्वाहा आदि नामोंसे पुकारते हैं! कृष्ण! आप ही इस जगत्के आवि कारण हैं। आप ही इसकी सृष्टि करते हैं और आपहीमें इसका प्रलय होता है। विश्वयोने! यह सम्पूर्ण विश्व आपके ही अधीन है। शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले परमात्मन्! आपको मेरा बारंबार प्रणाम है!

इस प्रकार धर्मराजने जब सबामें भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति की तो उन्होंने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिरका अभिनन्दन किया। तदनन्तर राजाने दरबारमें आये हुए प्रजाजनोंको विदा कर दिया। वे सब लोग उनकी आज्ञासे अपने-अपने घर चले गये। इसके बाद युधिष्ठिरने भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेवको सान्त्वना देते हुए कहा—“प्रिय बन्धुओ! गत महासमरमें शत्रुओंने नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करके तुम्हारे शरीरको बहुत घायल कर दिया है। इससे तुम बहुत थक गये हो और विशेष कष्ट उठा चुके हो; अतः अब जाकर प्रसन्नताके साथ आराम करो। विश्रामके अनन्तर जब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जायगा, तो फिर कल में तुमलोगोंसे मिलूंगा।”

तत्पश्चात् राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे युधिष्ठिरने दुर्योधनका महल भीमसेनको अर्पण किया। उसमें बहुत-सी अट्टालिकाएँ शोभा दे रही थीं, वहाँ स्तनोंका भंडार भरा था और बहुतसी दास-दासियाँ सेवाके लिये प्रस्तुत थीं। महाबाहु भीम उस महलमें चले गये। दुर्योधनका राजमहल जंटा सजा हुआ था, वैसा ही दुःशासनका भी था। उसमें भी प्रासद-मालाएँ शोभा पा रही थीं। वह भवन सोनेकी बंदनवारोंसे सजाया गया था, धन-धान्य और दास-दासियोंसे भरपूर था। राजाकी आज्ञासे वह महाबाहु अर्जुनको मिला। दुर्योधनका महल तो दुःशासनसे भी सुन्दर था। वह सोने और मणियोंसे सजा होनेके कारण कुचेरके राजभवनको भी भात करता था। उसे धर्मपुत्र युधिष्ठिरने नकुलको दिया। दुर्योधनका स्वर्ण-मण्डित महल भी कम सुन्दर नहीं था, वह सहदेवको दिया गया। युधुत्सु, विदुर, सञ्जय, सुधर्मा और धीम्य—ये लोग अपने-अपने पहलेके ही स्थानोंमें जाकर विराजमान हुए। भगवान् श्रीकृष्ण सात्यकिको साथ लेकर अर्जुनके महलमें चले गये। इस प्रकार सब राजाओंने अपने-अपने स्थानपर खान-पान करके बड़ी प्रसन्नताके साथ रात व्यतीत की और फिर सबवे उठकर सब राजा युधिष्ठिरकी सेवामें उपस्थित हो गये।

जनमेजयने पछा—विप्रवर! राजा युधिष्ठिरने

राज्य पानेके परचात् और जो-जो कार्य किये हैं, उन्हें यथास्थे । साथ ही त्रिमयनगुद भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रोंका भी वर्णन कीजिये ।

वंशम्पायनजीने कहा—राजन् ! कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने राज्य प्राप्त करनेके बाद सबसे पहले चारों धर्मोंको योग्यताके अनुसार अपने-अपने कर्तव्यपर स्थिर किया । फिर हजारों स्नातक ब्राह्मणोंसे प्रत्येकको उन्होंने एक-एक हजार स्वर्णमुद्राएँ दान कीं । इसके सिवा, जिनकी जीविकाका भार उन्हींके ऊपर था उन भूत्यों, शरणागतों तथा अतिथियोंको इच्छानुसार वस्तुएँ देकर संतुष्ट किया ।

—

युधिष्ठिरका भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे उनके साथ भीष्मजीके पास जानेका विचार

वंशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार सम्पूर्ण नगरकी प्रजाको संतुष्ट करके वे भगवान् श्रीकृष्णके पास गये और हाथ जोड़कर पड़े हो गये । उन्होंने देखा भगवान् रत्नों तथा सुवर्णसे भूषित एक बड़े पतंगपर बैठे हुए हैं, उनकी श्याम-सुन्दर छवि नीलमेघके समान सुशोभित हो रही है, शरीरसे तेज बरस रहा है और उनके अङ्ग-अङ्गमें दिव्य आभूषण शोभा पा रहे हैं । उनका पीताम्बरधारी श्याम विप्रह स्वर्णजटित नीलमेघके समान जान पड़ता है । वक्षःस्थलपर कौस्तुभमणि चमक रही है । इस मनोहर ढाँकीकी तीनों लोकोंमें कहीं भी उपमा नहीं है । दरानके परचात् भगवान्के निकट पहुँचकर राजा युधिष्ठिर मुसकराते हुए बोले— 'मगधन् ! आपहीकी कृपासे हमने राज्य पाया है, आपहीकी दयासे हम विजयी हुए और धर्मसे अछट नहीं होने पाये ।'

इस प्रकार राजाने कई बातें कहीं, पर भगवान्ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । उस समय वे ध्यानमान हो रहे थे । उनको इस स्थितिमें देखकर युधिष्ठिरने कहा— 'मगधन् ! यह क्या, आप किसीका ध्यान कर रहे हैं ? यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है ! माघव ! आपके रोंगटे पड़ेहो गये हैं, शरीर जरा भी हिलता नहीं, बुद्धि तथा मन भी स्थिर हैं । आपका यह विप्रह काठ, दीवार और पत्थरकी तरह निश्चेष्ट हो रहा है, हिल-डुल नहीं रहा है । जहाँ हाथ नहीं है, उस स्थानमें जँते बीपकी ली काँपती नहीं, एक-दूसरा जलती रहती है, उसी तरह आप भी स्थिर हैं, मानो पाषाणकी मूर्ति हों । यदि मैं सुननेका अधिकारी होऊँ और यह मन्त्रसे छिपानेकी बात न हो, तो आप मेरे संदेहको दूर कीजिये । मैं आपकी शरणमें आकर बारंबार याचना करता हूँ । पुरुषोत्तम ! आप ही इस जगत्को बनाने

परीबों और सवाल करनेवालोंकी भी कामनाएँ पूर्ण कीं । अपने पुरोहित धीम्य मुनिको उन्होंने हजारों गोएँ, धन, सुवर्ण, चाँदी तथा नाना प्रकारके वस्त्र दान किये । कृपा-धर्मका गुरकी भाँति पूजन किया और विदुरजीका वृष्यकी भाँति सम्मान किया । फिर अपने आशितोंको खाने-पीनेकी वस्तुएँ, नाना प्रकारके वस्त्र, शम्पा तथा आसन देकर प्रसन्न किया । इसी प्रकार उन्होंने राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र युयुत्सुका भी विशेष सत्कार किया । धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुरजीकी सेवामें अपना सारा राज्य ही निवेदन करके युधिष्ठिर बड़े निरिचल और सुकी हो गये ।



और बिगाड़नेवाले हैं, आप ही क्षर और अक्षर पुरुष हैं, आपका न आवि है न अन्त । आप सबके आदि कारण हैं । मैं आपका शरणगत मषत हूँ और माया टेककर आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ; आप मुझे इस ध्यानका रहस्य बता दीजिये ।'

युधिष्ठिरकी प्रार्थना सुनकर मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोंको अपने-अपने स्थानपर स्थापित करके भगवान् श्रीकृष्ण मुसकराते हुए बोले—'भैया ! आज शम्पापर पड़े हुए

भीष्मजी इस समय मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसीलिये मेरा भी मन उनमें लग गया है। जिन्होंने तेईस दिनतक परशुरामजीके साथ युद्ध किया तो भी उनसे परास्त न हो सके, वे ही भीष्मजी सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको एकाग्र कर वृद्धिके द्वारा मनको भी अपने अधीन करके मेरी शरणमें आ गये थे। इसीलिये मेरा भी मन उनमें लग गया। भगवती गङ्गाने जिन्हें विधिबद्ध अपने गर्भमें धारण किया, जिन्होंने महर्षि वसिष्ठजीसे शिक्षा पायी, जो सम्पूर्ण दिव्यास्त्रों तथा अङ्गोसहित चारों वेदोंके ज्ञाता हैं, सम्पूर्ण विद्याओंके आधार हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान जिनकी दृष्टिके सामने हैं, उन धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भीष्मजीके पास इस समय मैं मन-ही-मन पहुँच गया था। नरश्रेष्ठ भीष्मजीके स्वर्गवासी ही जानेपर यह पृथ्वी अगावस्थाकी रातके समान श्रीहीन हो जायगी। इसलिये आप गङ्गानन्दन भीष्मजीके पास चलकर उनके चरणोंमें प्रणाम कीजिये और आपके मनमें जितने संदेह हों, उन सबको उनसे पूछिये। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंके स्वरूपको, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्ययर्थसे सम्बन्ध रखनेवाले यज्ञादि कर्मोंको तथा चारों आश्रमों और राजाओंके समस्त धर्मोंको आप उनसे पूछिये। कौरव-वंशका भार सँभालनेवाले भीष्मरूपी सूर्य जिस समय अस्त हो जायेंगे, उस समय सब प्रकारके ज्ञानोंका प्रकाश नष्ट हो जायगा; इसीलिये मैं आपको वहाँ चलनेके लिये कहता हूँ।

भगवान् श्रीकृष्णकी यथार्थ बातें सुनकर युधिष्ठिरका

गला भर आया, वे नेत्रोंसे आंसू बहाते हुए कहने लगे—
‘माधव ! आप भीष्मजीका जंसा प्रभाव बतला रहे हैं, वह सब ठीक है; उसमें संदेहके लिये गुंजायमान नहीं है। मुझे भी उनका प्रभाव मालूम है। उनके महान् सौभाग्य और प्रभावके विषयमें मैंने कई महात्मा ब्राह्मणोंकी बातें सुनी हैं। आप तो सम्पूर्ण जगत्के विधाता ही हैं; आप जो कुछ कह रहे हैं, उसमें अन्वया विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। भगवन् ! यदि आप मुझपर अनुग्रह करना चाहते हों तो आपको ही आगे करके हमलोग भीष्मजीके पास चलनेका विचार करते हैं। सूर्यके उत्तरायण होते ही वे देवलोकमें चले जायेंगे, इसलिये अब उन्हें भी आपका दर्शन मिलना ही चाहिये।’

धर्मराजकी बात सुनकर मधुसूदनने पास ही बंटे हुए सात्यकिसे कहा—‘तुम रथ तैयार कराओ।’ आज्ञा पाकर सात्यकि शिविरसे बाहर निकले और दारुफते बोले—
‘भगवान् श्रीकृष्णका रथ जोतकर लाओ।’ सात्यकिके कथनानुसार दारुफने रथ जोतकर तैयार किया। भगवान्के उस रथमें सब ओर सोना जड़ा हुआ था, उसका भीतरी भाग नाना प्रकारकी अद्भुत मणियोंसे सजाया गया था। सूर्यकी किरणोंके पड़नेसे उसकी आभा अत्यन्त उदीप्त हो रही थी। उसमें शंख और सुग्रीव आदि घोड़े जुते हुए थे। इस प्रकार रथ तैयार करके दारुफ भगवान्के पास गया और हाथ जोड़कर उसने उनको इस बातकी इत्तिला की।

‘ भीष्मद्वारा भगवान्की स्तुति

राजा जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! वाणशय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्मजीने किस प्रकार अपने शरीरका परित्याग किया ? उस समय उन्होंने किस योगकी धारणा की ?

वंशम्पायनजीने कहा—राजन् ! तुम पवित्र भावसे एकाग्रचित्त एवं सावधान होकर महात्मा भीष्मके देह-त्यागका वृत्तान्त सुनो। जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तर-भागपर आ गये, उस समय भीष्मजीने ध्यानमग्न होकर मनको परमात्मामें लगाया। उनके आस-पास अनेकों उत्तम ब्राह्मण विराजमान थे। वेदोंके ज्ञाता व्यास, देवर्षि नारद, देवस्थान, वातरथ, अशमक, सुमन्तु, जैमिनि, पौल, शाण्डिल्य, देवल, मंत्रेय, वसिष्ठ, कौशिक (विश्वामित्र), हारोत, लोमश, यत्नात्रेय, वृहस्पति, शुक्र, च्यवन, सन्तुकुमार, फणिल, वाल्मीकि, तुम्बुरु, क्रुच, मोद्गत्य, परशुराम, तृणविन्दु, पिप्पलाद, दायु, संवर्त, पुलह, कच, कश्यप,

पुत्रस्त्य, प्रतु, दक्ष, पराशर, मरीचि, अङ्गिरा, काश्य, गौतम, गालव, द्यौम्य, विभाण्ड, माण्डव्य, धौत्र, कृष्णानु-भौतिक, उलूक, मार्कण्डेय, भास्करि और पूरण—ये तथा और भी बहुत-से सौभाग्यशाली मुनि, जो श्रद्धा, शर्म, तम आदि गुणोंसे सम्पन्न थे, भीष्मजीको घेरे हुए थे। इन ऋषियोंके बीचमें भीष्मजी ग्रहोंसे घिरे हुए, चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे थे। शरशय्यापर पड़े-ही-पड़े वे हाथ जोड़कर पवित्र भावसे श्रीकृष्णका ध्यान करने लगे। ध्यान करते-करते अत्यन्त हर्षमें भर गये। उनके पाठका स्वर स्पष्ट सुनायी देने लगा। वे संसारके स्वामी योगेश्वर भगवान् वासुदेवकी स्तुति करने लगे।

भीष्मजी बोले—मैं श्रीकृष्णके आराधनकी इच्छासे जिस वाणीका प्रयोग करना चाहता हूँ, वह विरतुत हो या संक्षिप्त, उसे सुनकर वे पुरुषोत्तम ममपर प्रसन्न हों। जो

स्वतः शूद्र हैं, जिनकी प्रातिपत्ता माता भी सर्वथा शूद्र है, जो सबसे विलक्षण हंसस्वरूप हैं और प्रजाओका पालन करनेवाले परमेष्ठी हैं, उन परमात्माकी भी शरण लेता हूँ। सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाले श्री हरि परब्रह्म परमात्मा हैं, उनका न आवि है न अन्त। उन्हें न देवता जान पाने हैं न श्रुति। एवमात्र वे नारायण ही सबको जानते हैं। नारायणले ही श्रुति प्रकट हुए हैं, सिद्धों और बड़े-बड़े नागोंका भी उन्होंने प्रशुभार्थ हुआ है। देवता और देवादि भी उनके विषयमे इतना ही जानते हैं कि वे अविनाशी परमात्मा हैं। किन्तु वे भगवान् नारायण कौन हैं, कहामि आये हैं—इन घातोंका यथार्थ ज्ञान देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पोंसे कितीको नहीं है। उन्होंने सम्पूर्ण प्राणी स्थित होते हैं और उन्होंने उनका तप होता है। जंमे शंभेमें मनके पिरोये होते हैं, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मासे सम्पूर्ण त्रिगुणात्मक भूत पिरोये हुए हैं। भगवान् कभी नष्ट न होनेवाले एक तने हुए सबे मूतके समान हैं; उनमें यह कार्य-कारणरूप जगत् उसी प्रकार गुंथा हुआ है, जैसे मूतमें भासा। सम्पूर्ण विश्व उन्होंने आधारपर टिका हुआ है, यह उन्हींकी रचना है। उन हीहरिके हजारों मस्तक, हजारों पैर तथा हजारों नेत्र हैं; हजारों भुजाओं, हजारों मुटुओं तथा हजारों मुखोंसे वे देवीव्यमान रहते हैं। वे ही इस जगत्के परम आधार हैं, उन्हींको नारायण कहते हैं। वे सूक्ष्ममें भी सूक्ष्म और स्थूलमें भी स्थूल हैं, भारीसे भारी और उत्तमसे भी उत्तम हैं। बाक और अनुबाकोंमें (मन्व और ब्राह्मणोंमें) तथा कर्म और ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले क्षत्रियोंमें जिस सत्पका प्रतिपादन किया गया है, यह सत्यकर्मा भगवान् वायुदेव ही हैं; वे ही 'साम' संतक श्रुचाओंके परमार्थ तत्त्व हैं। विशुद्ध अन्तःकरणमे उनका नित्य निवास (साक्षात्कार) होता है, वे अपने भक्तोंका सदा पालन करते रहते हैं। श्रीकृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न एवं अनिषद—इन चार स्वहृषोंमें वे ही प्रकट होते हैं और भक्तजन उषत चार दिव्य नामोंसे उन्हींको पूजा किया करते हैं। भगवान् वायुदेवकी ही प्रसन्नताके लिये नित्य तप (नैतिक कर्म) का अनुष्ठान किया जाता है, वे ही सबके भीतर विराजमान हैं। वे सबके आत्मा, सबको जाननेवाले, सर्वस्वरूप एवं सबको उत्पन्न करनेवाले हैं। जैसे अरणी अग्नि प्रकट करती है, उसी प्रकार देवकी देवीने इस भूमण्डलपर रहनेवाले ब्राह्मणों, वैदों और यत्नोंकी रक्षाके लिये जिन्हें वसुदेवके मकाशसे प्रकट किया था, सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग कर अनन्यभावसे स्थित रहनेवाला साधक मोक्षके उद्देशसे अपने विशुद्ध अन्तःकरणमे जिन शूद्र-भुद्र आत्मा-

रूप गोविन्दका शान्दृष्टियों साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम इन्द्र और वायुसे बहुत बढ़कर है, जिनके तेजसे सामने सूर्यकी कोई हस्ती नहीं है और जिनके स्वहृषणक मनुष्यके मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोंको पहुँच नहीं हो पाती, उन प्रजापालक परमेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ।

पुराणोंमें जिनका 'पुण्य' नामसे वर्णन किया गया है, जो युगोंके आरम्भमे 'ब्रह्म' और युगान्तके समय 'संकल्प' बह गये हैं, उन उपासनीय परमेश्वरकी मैं उपासना करता हूँ। जो एक होकर भी अनेक रूपोंमे प्रकट हुए हैं, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, यज्ञादि कर्मोंमें समे हुए अनन्य भक्त जिन परमात्माका ध्यान करते हैं, जिन्हें संसारका कोषागार कहते हैं, जिनमें ही सम्पूर्ण प्रजाएँ स्थित हैं, पानीके ऊपर तैरनेवाले जल-मक्षियोंकी तरह जिनके ही ऊपर इस सम्पूर्ण जगत्की छेष्टाएँ हो रही हैं, जो परमात्म स्वरूपरूप और एकाक्षर ब्रह्म (प्रणव) हैं, तत् और अस्तमे विलक्षण हैं, जिनका आवि, मध्य और अन्त नहीं है, जिन्हें न देवता ठीक-ठीक जानते हैं न श्रुति, अपने मन और इन्द्रियोंको बशीभूत करके सम्पूर्ण देवता, अगुर, गन्धर्व, सिद्ध, श्रुति तथा मागण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, जो संसार-रूपी दुःखसे छुड़ानेके लिये सबसे बड़ी ओषधि हैं, जो जन्म-मरणसे परे स्वयम्भू एवं सनातन देवता हैं तथा जो इन नेत्रों और बुद्धिको पहुँचके बाहर हैं, उन भगवान् नारायणकी मैं शरण लेता हूँ। जो इस विश्वके विधाता और धराधार जगत्के स्वामी हैं, जिन्हें संसारका साथी तथा अविनाशी परमपद कहते हैं, उन परमात्माकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

जो सुवर्णके समान कान्तिवाले और बँपोंके संहारक हैं, एक होनेपर भी जिन्हें अद्विधित देयोंने अपने गमसे बाह्य आदिभ्योके रूपमे प्रकट किया, उन सूर्यस्वरूप परमेश्वरकी नमस्कार है। जो अपनी अमृतमयी कलाओंसे शूक्तपक्षमें देवताओंको और कृष्णपक्षमें पितरोंको तृप्त करते हैं तथा जो सम्पूर्ण द्विजोंके राजा हैं, उन चन्द्रमाके रूपमे प्रकट हुए परमात्माके प्रणाम है। जो अज्ञानमय महान् ग्रन्थकारसे परे और ज्ञानालोकसे अग्र्यन्त प्रकाशित होनेवाले आत्मा हैं, जिन्हें जान सेनेपर मनुष्य मीतके चंगुलसे छूट जाता है, उन ज्येष्ठरूप परमेश्वरकी नमस्कार है। उषय नामक बृहत् धनके समय, अग्न्याधानकालमे तथा महाध्यागमें ब्राह्मणबुद्ध जिनका ब्रह्मके रूपमें स्तवन करते हैं, उन वेदभगवान्की नमस्कार है। श्रुत्येद, यजुर्वेद तथा सामवेद जिसके आधय हैं, पौष प्रकारका हविष्य जिसका स्वहृष है, गायत्री आवि सात छन्द ही जिसके सात ठगु हैं, उस यज्ञके रूपमे प्रकट हुए

को प्रणाम है। चार, चार, दो, पाँच और दो अक्षरोंवाले मन्त्रोंसे जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन होमस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है। जो 'यजुः' नाम धारण करनेवाले वेदरूपी पुरुष हैं, गायत्री आदि छन्द जिनके हाथ-पैर आदि अवयव हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है तथा 'रथन्तर' और 'वृहत्' नामक साम ही जिनकी सान्त्वनाभरी वाणी है, उन स्तोत्ररूपी भगवान्को प्रणाम है। जो हजार वर्षोंमें पूर्ण होनेवाले प्रजापतियोंके यज्ञमें सोनेकी पाँखवाले पंछीके रूपमें प्रकट हुए थे, उन हंसरूपधारी परमेश्वरको प्रणाम है। पदोंके समूह जिनके अङ्ग हैं, संधि जिनके शरीरकी जोड़ है, स्वर और व्यञ्जन जिनके लिये आभूषणका काम देते हैं तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वरको वाणीके रूपमें नमस्कार है। जिन्होंने तीनों लोकोंका हित करनेके लिये यज्ञमय बराहका स्वरूप धारण करके इस पृथ्वीको रसातलसे ऊपर उठाया था, उन वीर्यस्वरूप भगवान्को प्रणाम है। जो अपनी योगमायाका आश्रय लेकर शेषनागके हजार फनोंसे बने हुए पलंगपर शयन करते हैं, उन निद्रास्वरूप परमात्माको नमस्कार है। जिनका सारा व्यवहार केवल धर्मके ही लिये है, उन वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा जो मोक्षके साधनभूत वैदिक उपायोंसे काम लेकर संतोंकी धर्म-मर्यादाका प्रसार करते हैं, उन सत्स्वरूप परमात्माको नमस्कार है। जो भिन्न-भिन्न धर्मोंका आचरण करके अलग-अलग उनके फलोंकी इच्छा रखते हैं, ऐसे पुरुष पृथक् धर्मोंके द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, उन धर्ममय भगवान्को प्रणाम है। जिस अनङ्गकी प्रेरणासे सम्पूर्ण अङ्गधारी प्राणियोंका जन्म होता है, जिससे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते हैं, उस कामके रूपमें प्रकट हुए परमेश्वरको नमस्कार है। जो स्थूल जगत्में अव्यवत्तरूपसे विराजमान है, बड़े-बड़े महर्षि जिसके तत्त्वका अनुसंधान करते रहते हैं, जो सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञके रूप में बंठा हुआ है, उस क्षेत्ररूपी परमात्माको प्रणाम है। जो जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओंके भेदसे त्रिविध प्रतीत होते हैं, गुणोंके कार्यभूत सोलह विकारोंसे आवृत होनेपर भी अपने स्वरूपमें ही स्थित हैं, सांख्यमतके अनुयायी जिन्हें उक्त सोलह विकारोंके साक्षी और उनसे निर्लिप्त सबहवां तत्त्व (पुरुष) मानते हैं, उन सांख्यरूप परमात्माको नमस्कार है। जो नौदको जीतकर प्राणोंपर विजय पा चुके हैं और इन्द्रियोंको अपने वशमें करके शूद्र सत्त्वमें स्थित हो गये हैं, वे निरन्तर योगाभ्यासमें

लगे हुए योगीजन समाधिमें जिनके ज्योतिर्मय स्वरूपका साक्षात्कार करते हैं, उन योगरूप परमात्माको प्रणाम है। पाप और पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनर्जन्मके भयसे मुक्त हुए शान्तचित्त संन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन मोक्षरूप परमेश्वरको नमस्कार है। सृष्टिके एक हजार युग बीतनेपर प्रचण्ड ज्वालामोक्षे युक्त प्रलयकालीन अग्निका रूप धारण कर जो सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करते हैं, उन उग्ररूपधारी परमात्माको प्रणाम है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका भक्षण करके जो इस जगत्को जलमय कर देते हैं और स्वयं बालकका रूप धारण कर अक्षयवटके पत्तेपर शयन करते हैं, उन मायामय बालमुकुन्दको नमस्कार है। जिसपर यह विश्व टिका हुआ है, वह ब्रह्माण्डकमल जिन पुण्डरीकाक्ष भगवान्की नाभिसे प्रकट हुआ है, उन कमलरूपधारी परमेश्वरको प्रणाम है।

जिनके हजारों मस्तक हैं, जो अन्तर्यामीरूपसे सबके भीतर विराजमान हैं, जिनका स्वरूप किसी सीमामें आबद्ध नहीं है, जो चारों समुद्रोंके मिलनेसे एकार्णव हो जानेपर योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन करते हैं, उन योगनिद्रारूप भगवान्को नमस्कार है। जिनके मस्तकके वालोंकी जगह मेघ हैं, शरीरकी संधियोंमें नदियाँ हैं और उदरमें चारों समुद्र हैं, उन जलरूपी परमात्माको प्रणाम है। सृष्टि और प्रलयरूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय होता है, उन कारणरूप परमेश्वरको नमस्कार है। जो रातमें भी बैठे होते हैं और दिनके समय साक्षीरूपमें स्थित रहते हैं तथा जो सदा ही सबके भले-बुरेको देखते रहते हैं, उन द्रष्टारूपी परमात्माको प्रणाम है। जिन्हें कोई भी काम करनेमें रुकावट नहीं होती, जो धर्मका काम करनेको सर्वदा उद्यत रहते हैं तथा जो वैकुण्ठधामके स्वरूप हैं, उन कार्यरूप भगवान्को नमस्कार है। जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोधमें भरकर धर्मके गौरवका उल्लङ्घन करनेवाले क्षत्रिय-समाजका युद्धमें इक्कीस बार संहार किया, कठोरताका अभिनय करनेवाले उन भगवान् परशुरामको प्रणाम है। जो प्रत्येक शरीरके भीतर वायुरूपमें स्थित हो अपनेको प्राण-अपान आदि पाँच स्वरूपोंमें विभक्त करके सम्पूर्ण प्राणियोंको क्रियाशील बनाते हैं, उन वायुरूप परमेश्वरको नमस्कार है। जो प्रत्येक युगमें योगनायकके बलसे अवतार धारण करते हैं और मास, ऋतु, अयन तथा वर्षोंके द्वारा सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं, उन कालरूप परमात्माको प्रणाम है। ब्रह्मण जिनके मुख हैं, सम्पूर्ण क्षत्रिय-जाति भुजा है, वैश्य जंघा एवं उदर हैं और शूद्र जिनके चरणोंके आश्रित हैं, उन चातुर्वर्ण्यरूप परमेश्वरको नमस्कार है। अग्नि जिनका मुख है, स्वर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है,

१. आश्रावय। २. अस्तु धीपट्। ३. यज।
४. ये यजामहे। ५. वषट्।

पृथ्वी पर है, सूर्य नेत्र है और विशाखें कान हैं, उन लोकरूप्य परमात्माको प्रणाम है ।

जो कालसे परे हैं, यज्ञसे भी परे हैं और परसे भी अत्यन्त परे हैं, जो सम्पूर्ण विश्वके आदि हैं, किन्तु जिनका आदि कोई भी नहीं है, उन विश्वात्मा परमेश्वरको नमस्कार है । वैशेषिक दर्शनमें बताया हुआ रूप, रस आदि गुणोंके द्वारा आकृष्ट हो जो लोग विषयोंके सेवनमें प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको उन विषयोंकी आसक्तिसे जो रसा करनेवाले हैं, उन रसकरूप परमात्माको प्रणाम है । जो अन्न-जलरूपी ईधनको पाकर शरीरके भीतर रस और प्राण-शक्तिको बढ़ाते तथा सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करते हैं, उन प्राणात्मा परमेश्वरको नमस्कार है । प्राणोंकी रसाके लिये जो भक्ष्य, भोग्य, घोष्य, सेह्य—चार प्रकारके अन्नोंका भोग सगाते हैं और स्वयं ही पेटके भीतर अग्निरूपमें स्थित भोजनको पचाते हैं, उन पाकरूप परमेश्वरको प्रणाम है । जिनका नरसिंह रूप दानवराज हिरण्यकशिपुका अन्त करनेवाला था, उस समय जिनके नेत्र और कंधेके बाल पीले दिखायो पड़ते थे, बड़ो-बड़ो दाढ़ें और नल हो जिनके आमुध थे, उन दर्प-रूपधारी भगवान् नरसिंहको प्रणाम है । जिन्हें न देवता, न गन्धर्व, न देव्य और न दानव ही ठीक-ठीक जान पाते हैं, उन सूक्ष्मस्वरूप परमात्माको नमस्कार है । जो सर्वव्यापक भगवान् श्रीमान् अनन्तनामक शोबनामके रूपमें रसातलमें रहकर सम्पूर्ण जगत्की अपने मस्तकपर धारण करते हैं, उन वीर्यरूप परमेश्वरको प्रणाम है । जो इस सृष्टि-परम्पराकी रसाके लिये सम्पूर्ण प्राणियोंको स्नेहासामें बाँधकर मोहमें डाले रखते हैं, उन मोहरूप भगवान्को नमस्कार है । अन्नमयादि पाँच कोषोंमें स्थित अन्ततम आत्माका ज्ञान होनेके पश्चात् विशुद्ध बोधके द्वारा विद्वान् पुरुष जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन ज्ञानस्वरूप परब्रह्मको प्रणाम है ।

जिनका स्वरूप किसी प्रमाणका विषय नहीं है, जिनके दृष्टिरूपी नेत्र सब ओर व्याप्त हो रहे हैं तथा जिनके भीतर अनन्त विषयोंका समावेश है, उन दिव्यात्मा परमेश्वरको नमस्कार है । जो जटा और दण्ड धारण करते हैं, लम्बोदर शरीरवाले हैं तथा जिनका कमण्डलु ही तूणीरका काम देता है, उन ब्रह्माजीके रूपमें भगवान्को प्रणाम है । जो त्रिशूल धारण करनेवाले और देवताओंके स्वामी हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने शरीरपर विभूति रमा रखी है, उन रुद्ररूप परमेश्वरको नमस्कार है । जिनके मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट और शरीरपर संपका घनोपवीत शोभा दे रहा है, जो अपने हाथमें पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं, उन उपरुपधारी भगवान् शंकरको प्रणाम है ।

जो सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा और उनकी जन्म-मृत्युके कारण हैं, जिनमें क्रोध, द्रोह और मोहका संबंध अभाव है, उन शांतात्मा परमेश्वरको नमस्कार है । जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, जो स्वयं ही सर्वस्वरूप हैं, सब ओर व्यापक हो रहे हैं और सर्वमय हैं, उन सर्वात्माको प्रणाम है ।

इस विश्वकी रचना करनेवाले परमेश्वर ! आपको प्रणाम है । विश्वके आत्मा और विश्वकी उत्पत्तिके स्थानमूत जगदीश्वर ! आपको नमस्कार है । आप पाँचों भूतोंसे परे हैं और सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये मोक्षस्वरूप ब्रह्म हैं । तीनों लोकोंमें व्याप्त हुए आपको नमस्कार है, त्रिभुवनसे परे रहनेवाले आपको प्रणाम है, सम्पूर्ण विश्वात्माओंके व्यापक आप प्रभुको नमस्कार है । आप सब पदाधीन पूर्ण भंडार हैं । संसारकी उत्पत्ति करनेवाले अधिनाशी भगवान् विष्णु ! आपको नमस्कार है ! हृषीकेश ! आप सबके जन्मदाता और संहारकर्ता हैं । आप किसीसे पराजित नहीं होते । मैं तीनों लोकोंमें आपके दिव्य जन्म-कर्मका रहस्य नहीं जान पाता; मैं तो तत्त्वबुद्धिसे आपका ओ सनातन रूप है, उसीकी ओर लक्ष्य रखता हूँ । स्वर्गलोक आपके मस्तकसे, पृथ्वीदेवी आपके पंरोंसे और तीनों लोक आपके तीन पाँसोंके व्याप्त हैं, आप सनातन पुरुष हैं । विशाखें आपकी भुजाएँ, सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके घोड़े हैं; अपने ही अत्यन्त तेजसवीं बायुके रूपसे उपरके सातों लोकोंकी व्याप्त कर रक्षता है । जिनकी कान्ति अस्तसौके फूलकी तरह साँवली है, शरीरपर पीताम्बर शोभा देता है, जो अपने स्वरूपसे कभी द्युत नहीं होते, उन भगवान् गोविन्दको जो लोग नमस्कार करते हैं, उन्हें कभी भय नहीं होता । भगवान् धीकृष्णको एक बार भी प्रणाम किया जाय तो वह दस अश्वमेध यज्ञोंके अन्तमें किये गये स्नानके समान फल देने-वाला होता है । इसके सिवा प्रणाममें एक विशेषता है— दस अश्वमेध करनेवालेका तो पुनः इस संसारमें जन्म होता है, किन्तु धीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य फिर भव-बन्धनमें नहीं पड़ता । जिन्होंने धीकृष्ण-भजनका ही व्रत से रखा है, जो धीकृष्णका निरन्तर स्मरण करते हुए ही रातको सोते हैं और जहाँका स्मरण करते हुए सबेरे उठते हैं, वे धीकृष्ण-स्वरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं, जैसे मन्त्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्निमें मिल जाता है ।

जो नरकके भयसे बचानेके लिये रसा-गृहका निर्माण करनेवाले और संसाररूपी स्रितिकाको भँवरसे पार उतारनेके लिये कालकी नावके समान हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है । जो ब्राह्मणोंके प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणोंके कित्तकारी हैं ।

जिनसे समस्त विश्वका कल्याण होता है, उन त्रिचिदानन्द-स्वरूप भगवान् गोविन्दकी प्रणाम है। 'हरि' ये दो अक्षर दुर्गम पद्यमें संकटके समय प्राणिके लिये राह-खर्चके समान हैं, संसाररूपी रोगसे छुटकारा दिलानेके लिये औषधके तुल्य हैं तथा सब प्रकारके दुःख-शोकसे उद्धार करनेवाले हैं। जैसे सत्य विष्णुमय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है, जित्त प्रकार सब कुछ विष्णुमय है, उस प्रकार इस सत्यके प्रभावसे मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें। देवताओंमें श्रेष्ठ कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण ! मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गतिकी प्राप्त करना चाहता हूँ; जिसमें मेरा कल्याण हो, वह आप ही सोचिये। जो विद्या और तपके जन्मस्थान हैं, जिनको दूसरा कोई जन्म देनेवाला नहीं है, उन भगवान् विष्णुका मैंने इस प्रकार वाणीरूप यज्ञसे पूजन किया है। इससे वे भगवान् जनार्दन मुक्तपर प्रसन्न हों। नारायण ही परब्रह्म हैं, नारायण ही परम तप हैं, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान् नारायण ही सदा सब कुछ हैं। वैशम्पायनजी कहते हैं—भीष्मजीका मन भगवान् श्रीकृष्णमें लगा हुआ था, उन्होंने ऊपर बताया हुई स्तुति

करनेके पश्चात् 'नमः कृष्णाय' कहकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान् भी अपने योगबलसे भीष्मजीकी भक्तिकी जानकर अव्यवहारसे वहाँ जा पहुँचे और उन्हें तीनों लोकोंकी बातोंका बोध करानेवाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गये। जब भीष्मजीका बोलना बंद हो गया तो वहाँ बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्षियोंने आँखोंमें आँसू भरकर गद्गद कण्ठसे श्रीकृष्णकी स्तुति की। फिर वे धीरे-धीरे भीष्मजीकी प्रशंसा करने लगे।

इधर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भीष्मजीका भक्तिभाव देखकर सहसा उठे और तुरन्त रथपर जा बैठे। श्रीकृष्ण और सात्यकि एक रथपर चले। दूसरे रथपर महात्मा युधिष्ठिर और अर्जुन जा रहे थे। तीसरेपर भीम, नकुल तथा सहदेव—ये तीनों भाई सवार थे। कृपाचार्य, युवुत्सु और सञ्जय भी अपने-अपने रथपर बैठकर भीष्मजीके पास चले। उस समय बृहत्तमे ब्राह्मण मार्गमें पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे थे और भगवान् प्रसन्नतापूर्वक उसे सुनते जा रहे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान्के चरणोंमें प्रणाम करते थे और वे उन्हें आनन्दित करते हुए चले जा रहे थे।

परशुरामजीका चरित्र

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण, राजा युधिष्ठिर, गेप पाण्डव तथा कृपाचार्य आदि सब लोग अपने नगराकार विशाल रथोंसे कुशलेन्द्रकी ओर बढ़े। रास्तेमें चलते-चलते भगवान् श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिरकी परशुरामजीका पराक्रम सुनाने लगे—“राजन् ! ये जो पाँच सरोवर दिखायी पड़ते हैं, 'रामहृद' के नामसे प्रसिद्ध हैं। परशुरामजीने इक्कीस बार इस भूमण्डलके क्षत्रियोंका संहार करके इन कुण्डोंको उनके खूनसे भरा था।”

युधिष्ठिरने पूछा—यदुनाथ ! जब परशुरामजीने पूर्वकालमें इस पृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियोंसे मूनी कर दिया तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ? उन्होंने क्षत्रियोंका संहार क्यों किया ? मेरे इस सन्देहको आप दूर कीजिये; क्योंकि वेद-गात्र भी आपसे बढ़कर नहीं हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर श्रीकृष्णने वह सब घटना जैसे घटित हुई थी, सब उन्हें कह सुनायी।

श्रीकृष्ण बोले—कुन्तीनन्दन ! मैंने महर्षियोंके मुखसे परशुरामजीके प्रभाव, पराक्रम तथा जन्मकी कथा जिस प्रकार सुनी है, वह सब आपको सुनाता हूँ; सुनिये। प्राचीन

कालमें एक जह्नु नामक राजा हो गये हैं; उनके पुत्रका नाम था अञ्ज। अञ्जसे बलाकाश्वका जन्म हुआ और बलाकाश्वके पुत्रका नाम कुशिक हुआ। कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे, उन्होंने पुत्र-प्राप्तिके लिये कठोर तपस्या की; इससे साक्षात् इन्द्र ही उनके यहाँ पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए। उनका नाम पड़ा गाधि। राजा गाधिके एक पुत्री हुई, जिसका नाम था सत्यवती। राजाने भृगुनन्दन ऋचीक मुनिके साथ अपनी उस कन्याका व्याह कर दिया। सत्यवती बड़े आचार-विचारसे रहती थी, उसकी शुद्धता देखकर ऋचीक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवतीको तथा राजा गाधिको पुत्र देनेके लिये चर तैयार किया और अपनी उस पत्नीको बुलाकर कहा—‘कल्याणी ! यह दो तरहका चर है, इसमेंसे यह तो तुम स्वयं खा लेना और यह दूसरा अपनी माँको खिला देना। इससे तुम्हारी माताके गर्भसे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो बड़े-बड़े क्षत्रियोंका संहार करेगा और कोई भी क्षत्रिय उसे युद्धमें नहीं जीत सकेगा। इसी तरह तुम्हारे लिये जो चर तैयार किया है, इसको खानेसे तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मणबालक उत्पन्न करोगी, जो मनपर काबू रखनेवाला, तपस्वी तथा धर्मवान् होगा।’

पत्नीको इस प्रकार समझकर तपस्यामें लगे रहनेवाले श्रुचीक मनि वनमें चले गये । इसी समय तीर्थयात्राके लिये निकले हुए राजा गाधि अपनी स्त्रीके साथ श्रुचीकके आश्रमपर आये । सत्यवती उस समय दोनों चद्र हाथमें लेकर बड़ी उतावलीके साथ माताके पास पहुँची और उसके पतिने जो कुछ कहा था, वह सब प्रसन्नतापूर्वक उसने अपनी माँको सुना दिया । उसकी माताने भूलसे अपना चद्र तो सत्यवतीको दे दिया और स्वयं उसका हा लिया ।

तदनन्तर सत्यवतीने क्षत्रियोंका विनाश करनेवाला गर्भ धारण किया । उसकी अवस्था देख श्रुचीक मुनिने कहा— 'कल्याणी ! मैंने तुम्हारे चरणों ब्राह्मणका महान् तेज स्थापित किया था और तुम्हारी माताके चरणों क्षत्रियोंका सम्पूर्ण तेज रल दिया था; किन्तु अब चद्रओंके बदल जानेसे ऐसी बात नहीं होगी । तुम्हारी माताका पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय ।' यह सुनकर सत्यवती कांप उठी, उसने पतिके चरणोपर मस्तक रखकर कहा— 'भगवन् ! अब ऐसी बात न कहिये । मुझे ब्राह्मणत्वसे रहित पुत्र पानेका आशीर्वाद न दीजिये ।'

श्रुचीकने कहा—कल्याणी ! मैंने यह संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भसे ऐसा पुत्र हो, यह भयंकर कर्म करनेवाला बालक तो चद्र बदल जानेके कारण ही तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न होगा ।

सत्यवती बोली—मुनिवर ! आप तो इच्छा करते ही सम्पूर्ण लोकोंको सृष्टि कर सकते हैं, फिर एक पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है ? मुझे तो बही पुत्र दीजिये जो शान्त हो, सरल हो । मेरा पति भले ही उपस्वभावका हो जाय किन्तु पुत्र तो मैं शान्त ही चाहती हूँ ।

श्रुचीकने कहा—मद्रे ! अच्छी बात है; तुमने जो कहा है, वसा ही होगा ।

श्रीकृष्ण कहते हैं—तदनन्तर सत्यवतीने जमदग्नि मुनिको जन्म दिया जो बड़े तपस्वी, शान्त और नियमोका पालन करनेवाले थे । उद्यर कुशिकनन्दन गाधिने विश्वामित्रको उत्पन्न किया, जो सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित गुणोंसे सम्पन्न थे और ब्रह्मणिको पदवीको प्राप्त हुए । जमदग्निने जिस उपस्वभाववाले पुत्रको उत्पन्न किया, वही परशुरामजी थे; वे सम्पूर्ण विद्याओं तथा धनुर्वेदके पारगामी विद्वान् हुए । वे ही क्षत्रिय कुलका संहार करनेवाले तथा प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी हुए । उन्होंने गण्यभावन पर्वतपर महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे अनेकों दिव्य अस्त्र तथा अत्यन्त तेजस्वी परशु प्राप्त किया । संसारमें इनकी समानता करनेवाला कोई नहीं था ।

उन्हीं दिनोंकी बात है, राजा वृत्तवीर्यके एक अर्जुन नामक अत्यन्त तेजस्वी पुत्र हुआ, जो हृह्यवंशी क्षत्रियोंका स्वामी था । उसने दत्तात्रेयजीको इपासे हजार बाँहें प्राप्त की थीं । वह महान् तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था । उसने अरबवध यत्नमें यह सम्पूर्ण पुष्पों, जिने अपने बाहुबलसे जीता था, ब्राह्मणोंको दान कर दी थी । एक बार अग्निदेवने उससे मिशा माँगी और उसने अपनी ही महारों भुजाओंके पराक्रमका भरोसा करके उन्हें मिशा दी । उसके बाणोंके अप्रभवागसे प्रकट होकर अग्निने अनेकों गाँवों, नगरों, देवों तथा गोशाताओंको जलाकर भस्म कर डाला । हवाका सहारा पाकर अग्निका प्रचण्ड वेग बढ़ता जाता था और वे हृह्यराजको साथ लेकर जंगलों और पर्वतोंको जला रहे थे । उन्होंने महात्मा आपव मुनिके मूने आधमको भी जला दिया । इससे आपवने रोपमें भरकर अर्जुनको इस प्रकार शाप दिया—'तुमने मेरे इस जंगलको भी जलाये बिना नहीं छोड़ा, इसलिये संग्राममें तुम्हारी इन भुजाओंको परशुरामजी काट डालेंगे ।'

अर्जुनने उस शापपर ध्यान नहीं दिया । उसके पुत्र बहुत बली थे । वे धर्मही और क्रूर भी थे । शापवशा ये ही अपने पिताके वधमें कारण बने । एक दिन वे जमदग्निकी गाणके बछड़ेको घूरा लें गये । कातंबीय अर्जुनको इसका कुछ भी पता नहीं था । उस बछड़ेके लिये घोर मुद्र हुआ । उसीमे परशुरामजीने रोपमें भरकर अर्जुनकी भुजाओंको काट डाला । फिर बछड़ेको लेकर वे अपने आश्रमपर चले आये । अर्जुनके पुत्र बड़े मूर्ख थे, वे सब मिसकर जमदग्निने आश्रमपर गये । उस समय परशुरामजी समिधा और कुरा सानेके लिये आश्रमसे बाहर गये हुए थे । अर्जुनके पुत्रोंने मौका पाकर भालेसे जमदग्निका मस्तक काट गिराया । परशुरामजी जब आश्रमपर आये तो पिताके वधसे उन्हें बड़ा अमर्ष हुआ, उनके श्रोत्रको सीमा न रही । उन्होंने पुष्पोंको क्षत्रियोंसे हीन कर देनेकी प्रतिज्ञा करके हृष्याय उठाया और सबसे पहले हृह्यपाँपर ही धावा किया । परशुरामजीने पराक्रम करके कातंबीयके समस्त पुत्रों और पौत्रोंका अन्त कर दिया और हजारों हृह्यवंशी क्षत्रियोंका सफाया कर डाला । फिर पुष्पोंको क्षत्रियोंसे मूनी करके उन्होंने इसे खूनसे गोली कर दिया । उस समय संकड़ों क्षत्रिय मरनेसे बच गये थे; वे ही धीरे-धीरे बढ़कर महा-पराक्रमी भूपाल हुए । तब परशुरामजीने फिरोसे अस्त्र उठाया और क्षत्रियोंके बालकौतकको भार डाला । अब क्षत्रियोंके गर्भमें ही बच्चे रह गये थे; पर उनमेंसे भी जो जन्म लेता, उसका पता लगाकर वे वध कर डालते थे ।

जिनसे समस्त विश्वका कल्याण होता है, उन सच्चिदानन्द-स्वरूप भगवान् गोविन्दको प्रणाम है। 'हरि' ये दो अक्षर दुर्गम पयमें संकटकके समय प्राणोंके लिये राह-खर्चके समान हैं, संसाररूपी रोगसे छुटकारा दिलानेके लिये औषधके तुल्य हैं तथा सब प्रकारके दुःख-शोकसे उद्धार करनेवाले हैं। जैसे सत्य विष्णुमय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है, जिस प्रकार सब कुछ विष्णुमय है, उस प्रकार इस सत्यके प्रभावसे मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें। देवताओंमें श्रेष्ठ कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण ! मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गतिको प्राप्त करना चाहता हूँ; जिसमें मेरा कल्याण हो, वह आप ही सोचिये। जो विद्या और तपके जन्मस्थान हैं, जिनको दूसरा कोई जन्म देनेवाला नहीं है, उन भगवान् विष्णुका मैंने इस प्रकार वाणीरूप यज्ञसे पूजन किया है। इससे वे भगवान् जनार्दन मुझपर प्रसन्न हों। नारायण ही परब्रह्म हैं, नारायण ही परम तप हैं, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान् नारायण ही सदा सब कुछ हैं। वैशम्पायनजी कहते हैं—भीष्मजीका मन भगवान् श्रीकृष्णमें लगा हुआ था, उन्होंने ऊपर बताया हुई स्तुति

परशुरामजीका चरित्र

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण, राजा युधिष्ठिर, शेष पाण्डव तथा कृपाचार्य आदि सब लोग अपने नगराकार विशाल रथोंसे कुरुक्षेत्रकी ओर बढ़े। रास्तेमें चलते-चलते भगवान् श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिरको परशुरामजीका पराक्रम सुनाने लगे—“राजन् ! ये जो पाँच सरोवर दिखायी पड़ते हैं, 'रामहृद' के नामसे प्रसिद्ध हैं। परशुरामजीने इक्कीस बार इस भूमण्डलके क्षत्रियोंका संहार करके इन कुण्डोंको उनके खूनसे भरा था।”

युधिष्ठिरने पूछा—यदुनाथ ! जब परशुरामजीने पूर्वकालमें इस पृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियोंसे सूनी कर दिया तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ? उन्होंने क्षत्रियोंका संहार क्यों किया ? मेरे इस संदेहको आप दूर कीजिये; क्योंकि वेद-शास्त्र भी आपसे बढ़कर नहीं हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर श्रीकृष्णने वह सब घटना जैसे घटित हुई थी, सब उन्हें कह सुनायी।

श्रीकृष्ण बोले—कुन्तीनन्दन ! मैंने महर्षियोंके मुखसे परशुरामजीके प्रभाव, पराक्रम तथा जन्मकी कथा जिस प्रकार सुनी है, वह सब आपको सुनाता हूँ; सुनिये। प्राचीन

करनेके पश्चात् 'नमः कृष्णाय' कहकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान् भी अपने योगबलसे भीष्मजीकी भक्तिको जानकर अव्यक्तरूपसे वहाँ जा पहुँचे और उन्हें तीनों लोकोंकी बातोंका बोध करानेवाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गये। जब भीष्मजीका बोलना बंद हो गया तो वहाँ बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्षियोंने आँखोंमें आँसू भरकर गद्गद कण्ठसे श्रीकृष्णकी स्तुति की। फिर वे धीरे-धीरे भीष्मजीकी प्रशंसा करने लगे।

इधर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भीष्मजीका भक्तिभाव देखकर सहसा उठे और तुरन्त रथपर जा बैठे। श्रीकृष्ण और सात्यकि एक रथपर चले। दूसरे रथपर महात्मा युधिष्ठिर और अर्जुन जा रहे थे। तीसरेपर भीम, नकुल तथा सहदेव—ये तीनों भाई सवार थे। कृपाचार्य, युयुत्सु और सञ्जय भी अपने-अपने रथपर बैठकर भीष्मजीके पास चले। उस समय बहुतसे ब्राह्मण मार्गमें पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे थे और भगवान् प्रसन्नतापूर्वक उसे सुनते जा रहे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान्के चरणोंमें प्रणाम करते थे और वे उन्हें आनन्दित करते हुए चले जा रहे थे।

कालमें एक जह्नु नामक राजा हो गये हैं; उनके पुत्रका नाम था अज। अजसे बलाकाश्वका जन्म हुआ और बलाकाश्वके पुत्रका नाम कुशिक हुआ। कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे, उन्होंने पुत्र-प्राप्तिके लिये कठोर तपस्या की; इससे साक्षात् इन्द्र ही उनके यहाँ पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए। उनका नाम पड़ा गाधि। राजा गाधिके एक पुत्री हुई, जिसका नाम था सत्यवती। राजाने भृगुनन्दन ऋचीक मुनिके साथ अपनी उस कन्याका व्याह कर दिया। सत्यवती बड़े आचार-विचारसे रहती थी, उसकी शुद्धता देखकर ऋचीक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवतीकी तथा राजा गाधिको पुत्र देनेके लिये चर तैयार किया और अपनी उस पत्नीको बुलाकर कहा—'कल्याणी ! यह दो तरहका चर है, इसमेंसे यह तो तुम स्वयं खा लेना और यह दूसरा अपनी माँको खिला देना। इससे तुम्हारी माताके गर्भसे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो बड़े-बड़े क्षत्रियोंका संहार करेगा और कोई भी क्षत्रिय उसे युद्धमें नहीं जीत सकेगा। इसी तरह तुम्हारे लिये जो चर तैयार किया है, इसको खानेसे तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मणबालक उत्पन्न करोगी, जो मनपर काबू रखनेवाला, तपस्वी तथा धैर्यवान् होगा।'

पत्नीको इस प्रकार समझाकर तपस्यामें लगे रहनेवाले ऋचीक मुनि वनमें चले गये । इसी समय तीर्थयात्राके लिये निकले हुए राजा पाण्डि अपनी स्त्रीके साथ ऋचीकके आश्रमपर आये । सत्यवती उस समय दोनों चर हायमें लेकर बड़ी उतावलीके साथ माताके पास पहुँची और उसके पतिने जो कुछ कहा था, वह सब प्रसन्नतापूर्वक उसने अपनी माँको सुना दिया । उसकी माताने भूलसे अपना चर तो सत्यवतीको दे दिया और स्वयं उसका खा लिया ।

तदनन्तर सत्यवतीने क्षत्रियोंका विनाश करनेवाला गर्भ धारण किया । उसको अवस्था देख ऋचीक मुनिने कहा— 'कल्याणी ! मैंने तुम्हारे चरमें ब्राह्मणका महान् तेज स्थापित किया था और तुम्हारी माताके चरमें क्षत्रियोंका सम्पूर्ण तेज रल दिया था; किन्तु अब चरअंके बदल जानेसे ऐसी बात नहीं होगी । तुम्हारी माताका पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय ।' यह सुनकर सत्यवती काँप उठी, उसने पतिके चरणोंपर मस्तक रखकर कहा— 'भगवन् ! अब ऐसी बात न कहिये । मुझे ब्राह्मणत्वसे रहित पुत्र पानेका आशीर्वाद न दीजिये ।'

ऋचीकने कहा—कल्याणी ! मैंने यह संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भसे ऐसा पुत्र हो, यह भयंकर कर्म करनेवाला बालक तो चर बदल जानेके कारण ही तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न होगा ।

सत्यवती बोली—मुनिवर ! आप तो इच्छा करते ही सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि कर सकते हैं, फिर एक पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है ? मुझे तो वही पुत्र दीजिये जो शान्त हो, सरल हो । मेरा पौत्र भले ही उपस्वभावका हो जाय किन्तु पुत्र तो मैं शान्त ही चाहती हूँ ।

ऋचीकने कहा—भद्र ! अच्छी बात है; तुमने जो कहा है, वंशा ही होगा ।

श्रीकृष्ण कहते हैं—तदनन्तर सत्यवतीने जमदग्नि मुनिको जन्म दिया जो बड़े तपस्वी, शान्त और नियमोंका पालन करनेवाले थे । उधर कुशिकनन्दन गांधिने विरवा-मित्रको उत्पन्न किया, जो सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित गुणोंसे सम्पन्न थे और ब्रह्मर्षिकी पदवीको प्राप्त हुए । जमदग्निने जिस उपस्वभाववाले पुत्रको उत्पन्न किया, वही परशुरामजी थे; वे सम्पूर्ण विद्याओं तथा धनुर्वेदके पारगामी विद्वान् हुए । वे ही क्षत्रिय कुलका संहार करनेवाले तथा प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी हुए । उन्होंने गन्धमादन पर्वतपर महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे अनेकों दिव्य अस्त्र तथा अत्यन्त तेजस्वी परशु प्राप्त किया । संसारमें इनकी सभ्यता करनेवाला कोई नहीं था ।

उन्होंने विनोंकी बात है, राजा कृतवीर्यके एक अर्जुन नामक अत्यन्त तेजस्वी पुत्र हुआ, जो हैहयवंशी क्षत्रियोंका स्वामी था । उसने दत्तात्रेयजीकी कृपासे हजार बहि प्राप्त की थीं । यह महान् तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था । उसने अरवमेघ याममें यह सम्पूर्ण पुष्पों, जिसे अपने बाहुबलतो जीता था, ब्राह्मणोंको दान कर दी थी । एक बार अग्निदेवने उससे मित्रा माँगी और उसने अपनी हजारों भुजाओंके पराक्रमका भरोसा करके उन्हें मित्रा दी । उसके बाणोंके अग्रभागसे प्रकट होकर अग्निने अनेकों गाँवों, नगरों, देशों तथा गोशालाओंको जलाकर भस्म कर डाला । हवाका सहारा पाकर अग्निका प्रचण्ड वेग बढ़ता जाता था और ये हैहयराजको साथ लेकर जंगलों और पर्वतोंको जला रहे थे । उन्होंने महात्मा आपव मुनिके मूत्रे आश्रमको भी जला दिया । इससे आपवने रोपमें भरकर अर्जुनको इस प्रकार शाप दिया—'तुमने मेरे इस जंगलको भी जलाये बिना नहीं छोड़ा, इसलिये संप्रानमें तुम्हारी इन भुजाओंको परशुरामजी काट डालेंगे ।'

अर्जुनने उस शापपर ध्यान नहीं दिया । उसके पुत्र बहुत बलते थे । वे धर्मही और क्रूर भी थे । शापवशा वे ही अपने पित्तके वधमें कारण बने । एक दिन वे जमदग्निको गायके बछड़ेको चुरा लें गये । कार्तवीर्य अर्जुनको इसका कुछ भी पता नहीं था । उस बछड़ेके लिये धीरे धीरे युद्ध हुआ । उसीमें परशुरामजीने रोपमें भरकर अर्जुनकी भुजाओंको काट डाला । फिर बछड़ेको लेकर वे अपने आश्रमपर चले आये । अर्जुनके पुत्र बड़े मूर्ख थे, वे सब मिलकर जमदग्निके आश्रमपर गये । उस समय परशुरामजी समिधा और कुश तानेके लिये आश्रमसे बाहर गये हुए थे । अर्जुनके पुत्रोंने मौका पाकर भालेसे जमदग्निका मस्तक काट गिराया । परशुरामजी जब आश्रमपर आये तो पित्तके वधसे उन्हें बड़ा अमर्ष हुआ, उनके क्रोधकी सीमा न रही । उन्होंने पुष्पोंको क्षत्रियोंसे हीन कर देनेकी प्रतिज्ञा करके हायमार उठाया और सबसे पहले हैहयोंपर ही धावा किया । परशुरामजीने पराक्रम करके कार्तवीर्यके समस्त पुत्रों और पौत्रोंका अन्त कर दिया और हजारों हैहयवंशी क्षत्रियोंका सफाया कर डाला । फिर पुष्पोंको क्षत्रियोंसे सूनो करके उन्होंने इसे खूनसे गोली कर दिया । उस समय संकड़ों क्षत्रिय मरनेसे बच गये थे; वे ही धीरे-धीरे बढ़कर महा-पराक्रमी भूपाल हुए । तब परशुरामजीने फिरसे अस्त्र उठाया और क्षत्रियोंके बालकौतकको मार डाला । अब क्षत्राणियोंके गर्भमें ही बच्चे रह गये थे; पर उनमेंसे भी जो जन्म लेता, उसका पता लगाकर वे वध कर डालते थे ।

उस समय कुछ ही अस्त्रिय-नागियाँ अपने गर्भको बचा सकीं। उस प्रकार इककोस बार अस्त्रियोंका संहार करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यह पृथ्वी करपपत्नीको दानमें दे दी। नव गोप अस्त्रियोंकी जीवन-रक्षाके लिये करपपत्नीने परशुरामजीसे कहा—‘राम ! तुम दक्षिण समुद्रके किनारे जने जाओ, अब मेरे राज्यमें कमी निवास न करना।’

यह सुनकर परशुरामजी चले गये। समुद्रने उनके लिये जगह खाली कर दी, जो शूर्पारक देवके नामसे प्रसिद्ध हुआ; उसे अमरान्त-भूमि भी कहते हैं। करपपत्नीने परशुरामकी दी हुई पृथ्वी स्वीकार करके उसे ब्राह्मणोंके सुपुत्र कर दिया और स्वयं भी वनमें चले गये। उस समय कोई बलवान् रक्षक न होनेके कारण सब और अराजकता फैल गयी। दली दुर्बलोंको प्रतापने लगे। ब्राह्मणोंमेंसे किसीकी प्रभुता कायम न रही। कालक्रमसे पापियोंका प्रभाव बढ़ा और पृथ्वी काष्ठ पाने लगी। अत्याचारसे पीड़ित हो यह वसुधा रसातलमें धंसने लगी। यह देख करपपत्नीने अपने अरुओसे सहारा देकर इसे रोका, इसलिये यह ‘ऊर्वी’ कहलाने लगी। तब इस पृथ्वीने अपनी रक्षाके लिये करपपत्नीको प्रसन्न करके बरदान माँगा—‘कृष्ण ! मैंने बहुत-से हेह्यवंगी अस्त्रियोंको स्त्रियोंमें छिपा रक्खा है, वे मेरी रक्षा करें। उनके सिवा पुरुवंगी विदूरथका भी एक

पुत्र जीवित है, जिसे ऋक्षवान् पर्वतपर रोछोंने पालकर बड़ा किया है। इसी तरह महर्षि परागरने व्यावग राजा सोदासके पुत्रोंकी जान बचायी है। राजा गिबिका भी एक तेजस्वी पुत्र है, जिसका नाम है गोपति, उसे वनमें गाँछोंने पाल-पोसकर बड़ा किया है। राजा प्रतदनका पुत्र बन्ध भी जीवित है, जिसे गोगालामें बछड़ोंने पाला है। विद्विरथके पुत्रको महर्षि गाँतमने गङ्गातटपर छिपा रक्खा है। महान् तेजस्वी बृहद्रथ भी जीवित है, जिन्हें वृध्रकूट पर्वतपर लंगूरोंने बचाया है तथा मरुतके वंगमें उत्पन्न हुए बहूत-से अस्त्रिय बालकोंका समुद्रने रक्षा की है। ये राजपुत्र-बालक मित्र-मित्र स्थानोंपर मौजूद हैं, यदि वे मेरी रक्षा करें तो मैं स्पिर रूढ़ सकती हूँ। इन ब्रह्मचारोंके बाप-दादे परशुरामजीके द्वारा युद्धमें मारे गये हैं। मैं धर्मकी न्यायादको लार्धनेवासे अस्त्रियद्वारा अपनी रक्षा नहीं चाहती। धार्मिक पुरुषके संरक्षणमें ही रूझूँगी। आप भी इसका प्रबन्ध कीजिये।’

पृथ्वीकी प्रार्थना सुनकर करपपत्नीने ऊपर बताये हुए राजकुमारोंकी मित्र-मित्र स्थानोंमें एकत्रित किया और उन्हें पृथ्वीके विभिन्न देवोंके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया। आज जिनके वंग कायम हैं, वे इन्हेंकि पुत्र-भौत्रोंमेंसे हैं। राजन् ! आपके प्ररनके अनुमार यह प्राचीन इतिहास मैंने सुना दिया। इसी प्रकार ये बातें हुई थीं।

श्रीकृष्णद्वारा भीष्मकी प्रशंसा, भीष्मद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति और श्रीकृष्णका भीष्मसे धर्मोपदेशके लिये कहना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार बातें करते हुए श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर, जहाँ भीष्मजी बाग-गध्यापर नौये हुए थे, उस स्थानपर जा पहुँचे। वह पावन प्रदेश शोषवती नदीके तटपर था। दूरसे ही भीष्मजीको देखकर श्रीकृष्ण, राजा युधिष्ठिर, अन्य चारों पाण्डव और कृपाचार्य आदि सब लोग अपने-अपने रथसे उतर पड़े और जहाँ ऋषियोंकी मण्डली बँधी थी, वहाँ आये। उन सब लोगोंने पहले ध्यास आदि महर्षियोंको प्रणाम किया, फिर वे भीष्मजीकी सेवामें उपस्थित हुए और उन्हें चारों ओरसे घेर-कर बैठ गये। तदनन्तर, श्रीकृष्णने इस प्रकार बातचीत आरम्भ की—‘भीष्मजी ! आपको बाणोंकी श्रेष्ठ सहनेका जो काष्ठ उठाना पड़ा है, इसमें आपके शरीरमें पीड़ा तो नहीं है ? क्योंकि मानसिक दुःखमें शारीरिक दुःख अधिक प्रबल होता है—उसे बरदायत करना मुश्किल हो जाता है।

शरीरमें एक छोटा-सा भी काँटा चुभ जाय तो वह बड़ा कष्ट देता है, फिर जो बाणोंके समूहपर ही सो रहा है, उस आपके शरीरकी पीड़ाके विषयमें तो कहना ही क्या है ? तो भी आपके सम्बन्धमें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये; क्योंकि आप जानते हैं—प्राणियोंके जन्म और मरण होते ही रहते हैं; अतः इस काष्ठकी देवका विधान समझकर आप घबराने न होंगे। आप तो देवताओंको भी उपदेश देनेकी शक्ति रखते हैं; आपका ज्ञान सबसे बड़ा है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आपको आँतोंके सामने है। प्राणियोंका संहार कब होता है, धर्मका क्या फल है और कब उसका उदय होता है ? ये सारी बातें आपको ज्ञात हैं; क्योंकि आप धर्मके माण्टार हैं। आप एक समृद्धिगाली राज्यके अधिकारी थे, आपके शरीरमें न तो कोई कमी थी, न किसी तरहका रोग था; आप पूर्ण स्वस्थ थे और हजारों स्त्रियोंके

बोचमें रहते थे, तो भी मैं आपको ऊर्ध्वरेता (अपण्ड बह्यचर्यसे सम्पन्न) ही देखता हूँ। मैंने तीनों लोकोंमें सत्यवादी, धर्मपरायण, शूरवीर तथा महापराक्रमी शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं मुना है, जो बाणोंकी शाय्यापर सोकर अपने तपोबलसे शरीरके लिये स्वभावनिष्ठ मृत्युको रोक देनेमें सफल हो सका हो। तात ! सत्य, तप, दान और यज्ञके आवरणमें, वेद, धनुर्वेद तथा नीतिशास्त्रके ज्ञानमें और कोमलताका वर्तव्य, बाहर-भीतरकी शुद्धि, मन और इन्द्रियोंका दमन तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका हितसाधन करनेमें मैंने आपके समान दूसरे किसी महारथीको नहीं देखा है। आप सम्पूर्ण देवता, गणधर्म, अमुर, यक्ष और राक्षसोंको अकेले ही जीत सकते हैं; इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महाबाहो ! आप गुणोंमें वसुओंसे तनिक भी कम नहीं हैं, इसलिये ब्राह्मण लोग आपको नवम वसु कहते हैं। अरु पुरुषोंमें थोड़े हैं और अपनी शक्तिसे देवताओंमें भी प्रसिद्ध हैं। इस पृथ्वीपर आपके समान गुणोंसे युक्त मनुष्य न तो मैंने कहीं देखा है और न मुना हो है। आप अपने सम्पूर्ण गुणोंके कारण देवताओंसे भी बढ़-चढ़कर हैं और अपनी तपस्यासे चराचर लोकोंको सृष्टि करनेमें समर्थ हैं; इसलिये आपसे एक निवेदन है—ये पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर अपने कुटुम्बियों और सगे-सम्बन्धियोंका नाम होनेसे बहुत दुखी हो रहे हैं। आप जैसे भी हो, इनका शोक दूर कीजिये। शास्त्रोंमें चारों वर्णों और चारों आधर्मिकों जो-जो धर्म बताने गये हैं, वे सब आपको विदित हैं। चारों विद्याओंमें जिन धर्मोंका प्रतिपादन किया गया है, चार प्रकारके होताओंके जो कर्तव्य हैं तथा योग और सांख्यमें जो सनातन धर्मका वर्णन है, वह सब आप व्याख्यासहित जानते हैं। देश, जाति और कुलके धर्मसे भी आप परिचित हैं। वेदोंमें कहा हुआ धर्म और शिष्ट पुरुषोंका बताया हुआ सदाचार भी आपसे अज्ञात नहीं है। इतिहास और पुराणोंके अर्थ आपको पूर्ण रूपसे ज्ञात हैं। धर्मशास्त्र तो सदा आपके हृदयमें स्थित रहते हैं। संसारमें जो संदेहपल्ल विषय हैं, उनका समाधान करनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसलिये राजन् ! युधिष्ठिरके हृदयमें जो शोक उमड़ उठा है, उसे आप अपनी बुद्धिसे शान्त कीजिये।

श्रीकृष्णकी ये बातें सुनकर भीष्मने तनिक सिर उठाया और हाथ जोड़कर स्तुति करना आरम्भ किया—'सम्पूर्ण लोकोंको उत्पत्ति और प्रलयके कारण भूत भगवान् श्रीकृष्ण ! आपको नमस्कार है। हृद्योक्ता ! आप ही सबको उत्पन्न

करनेवाले और आप ही सबके संहारकर्ता हैं। आप किसीसे परास्त नहीं होते। यह विश्व आपकी ही रचना है, आप ही इसके आत्मा और आप ही इसके उत्पत्तिके स्थान हैं। आप पाँचों भूतोंसे परे और प्राणियोंके लिये मोक्षस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तीनों लोकोंमें ध्यात् टाप आप परमेश्वरको नमस्कार है और तीनों लोकोंसे परे विराजमान आप प्रभुको प्रणाम है। योगेश्वर ! आप ही सबको शरण देनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम ! आपने मेरे सम्बन्धमें जो बातें कही हैं, उनके ही प्रभावसे इस समय मैं तीनों लोकोंमें वर्तमान आपके दिव्य भावोंको देख रहा हूँ और आपके उस सनातन स्वरूपका भी मुझे साक्षात्कार होने लगा है। आपने ही अमित तेजस्वी वायुके रूपसे ऊपरके सातों लोकोंको ध्यात् कर रक्ता है। आकाश आपके मस्तकसे और पृथ्वीदेवी आपके पंरोंसे ध्यात् हैं। समस्त दिशाएँ आपकी भुजाएँ, सूर्य नेत्र तथा शुक्राचार्य अर्थ हैं। आपका अलसोके फूलके समान श्याम विषह पीताम्बर पहने रहनेसे बिजली-सहित मेघके समान जान पड़ता है। कमलके समान नेत्रोंवाले देवधेयके धीकृष्ण ! मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गति पाना चाहता हूँ। जिससे मेरा कल्याण हो, वह उपाय आप ही सोचिये।'

श्रीकृष्णने कहा—पुरुषधेय ! मुझमें आपकी परा भक्ति है, इसीलिये मैंने आपको अपने दिव्य स्वरूपका दर्शन कराया है। भारत ! आप मेरे भक्त तो हैं ही, यापका स्वभाव भी बहुत सरल है, साथ ही आप जितेन्द्रिय, तपस्वी, सत्यवादी, दानो तथा परम पवित्र हैं। इसलिये आप अपनी तपस्याके बलसे मेरा दर्शन पानेके अधिकारी हैं। आपको सेवार्थके लिये वे दिव्यलोक प्रस्तुत हैं, जहाँ जाकर फिर इस लोकमें नहीं आना पड़ता। अब आपके जीवनके कुल छप्पन दिन शेष हैं, इसके बाद आप इस शरीरका त्याग करके अपने शुभ कर्मोंके फलस्वरूप उत्तम लोकोंमें जायेंगे। देखिये, ये देवता और वसु विमानोंमें बँठकर आकाशमें अक्षरपरसे रहते हुए उत्तरायण शून्य होनेपर आपके आनेकी बाट जोहते हैं। ज्ञानी पुरुष जिन लोकोंमें जाकर फिर इस संसारमें नहीं आते, आप भी वहाँ जाइयेगा। शीरवर ! इस लोकसे आपके चले जानेपर सारे ज्ञान सुप्त हो जायेंगे; अतः ये सब लोग धर्मका विवेचन करनेके लिये आपके पास आये हैं। इसलिये अब आप युधिष्ठिरको धर्म, अर्थ और योगकी वषार्थ बातें मुनाकर शीघ्र ही इनका शोक दूर कीजिये।

भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना और भगवान्‌का उन्हें वरदान देकर जाना तथा दूसरे दिन पुनः सबके साथ वहाँ उपस्थित होना

वैशम्पायनजी कहते हैं—श्रीकृष्णका यह धर्म और प्रत्येक युक्त वचन सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्मने दोनों हाथ जोड़कर कहा—‘जगदीश्वर ! आपकी बड़ी बाँहें हैं, कल्याणकारी नारायण ! आप अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं होते। आज आपकी बात सुनकर मैं आनन्दमें मग्न हो रहा हूँ। भला, मैं आपके समीप क्या कह सकूँगा जब कि वाणीका जो कुछ भी विषय है, वह सब आपकी वेदरूप वाणीमें स्थित है। जो मनुष्य देवराज इन्द्रके निकट देवलोकाका वृत्तान्त बतानेका साहस कर सके, वही आपके सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी बात कह सकता है। मधुसूदन ! इन वाणियोंके गड़नेसे जो कष्ट हो रहा है, उससे मेरे मनमें बड़ी वेदना है; सारा शरीर पीड़ानेके मारे शिथिल हो गया है। बुद्धि काम नहीं देती। अब मुझमें कुछ भी कहनेकी प्रतिभा नहीं है। विषय और आगके समान ये वाण मुझे निरन्तर पीडा दे रहे हैं। बल कम होता जा रहा है। प्राण निकलनेको उतावले हो रहे हैं। कमजोरीके कारण जीम तालूममें सट जाती है; ऐसी दशामें मैं कैसे बोल सकता हूँ। भगवन् ! आप मुझपर प्रसन्न होइये। क्षमा कीजिये, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपके पास धर्मोपदेश करते समय बृहस्पतिकी भी हिचक हो सकती है, मेरी तो विज्ञात ही क्या है ? मुझे न दिशाओंका ज्ञान है, न आकाश और पृथ्वीका ही भान हो रहा है। केवल आपकी शक्तसे जो रहा हूँ। इसलिये आप ही जिसमें धर्मराजका हित हो, वह बात बताइये; क्योंकि आप शास्त्रोंके भी शास्त्र हैं। श्रीकृष्ण ! आप जगत्के कर्ता और सनातन पुरुष हैं, आपके रहते मेरे-जैसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है ? क्या गुरुके होते हुए शिष्य उपदेश देनेका अधिकारी है ?’

श्रीकृष्णने कहा—गङ्गानन्दन ! आपने जो बात कही है, वह सर्वथा आपके योग्य है; क्योंकि आप सब विषयोंके ज्ञाता हैं। इसके सिवा वाणोंके प्रहारसे होनेवाले कष्टके विषयमें जो कहा है, उसके लिये मैं प्रसन्न होकर आपको वर देता हूँ; उसे स्वीकार कीजिये। अबसे आपको न ग्लानि होगी न मूर्च्छा, न दाह होगा न रोग। भूख और प्यासका कष्ट भी जाता रहेगा। आपके अन्तःकरणमें सब प्रकारके ज्ञान भासित होंगे। आपकी बुद्धि किसी भी विषयमें कुण्ठित न होगी। मन सदा सत्त्वगुणमें स्थित रहेगा। उसपर रजोगुण और तमोगुणका अस्तर न होगा। आप जिस

किसी धर्म या अर्थयुक्त विषयका चिन्तन करेंगे, उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जायगी। आप दिव्य दृष्टि पाकर स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्ज और जरायुज—इन चारों प्रकारके प्राणियोंको देख सकेंगे और अपनी ज्ञानदृष्टिसे संसारबन्धनमें पड़नेवाले जीवोंका भी साक्षात्कार कर सकेंगे।

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर ध्यास आदि सम्पूर्ण महर्षियोंने ऋगु, यजुः और सामवेदके मन्त्रोंसे भगवान् श्रीकृष्णका पूजन किया। आकाशसे फूलोंकी वर्षा हुई। सब प्रकारके बाज्र वज उठे। इतनेहीमें सूर्यदेव पश्चिममें अस्त होते दिखायी देने लगे। उस समय सब महर्षि उठकर खड़े हो गये और श्रीकृष्ण, भीष्म तथा युधिष्ठिरसे जानेके लिये पूछने लगे। तब पाण्डवोंसहित भगवान् श्रीकृष्ण, सात्यकि, सञ्जय तथा कृपाचार्यने उन सबको प्रणाम किया। इसके बाद वे धर्मात्मा महर्षि इन लोगोंद्वारा सम्मानित हो ‘कल फिर मिलेंगे’ ऐसा कहकर तुरन्त अपने-अपने स्थानको चले गये। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण और पाण्डवोंने भी भीष्मजीसे जानेकी आज्ञा ली और सब-के-सब अपने सुन्दर रथोंपर सवार हो गये। फिर चतुरङ्गणी सेनाके साथ वे लोग हस्तिनापुरकी ओर चल दिये। पाण्डव-महारथियोंके आगे और पीछे दोनों ओर सेना चल रही थी। योड़ी देर बाद पूर्व दिशामें चन्द्रमाका उदय हुआ। चाँदनीका प्रकाश पाकर पाण्डव-सेनाको बड़ा हर्ष हुआ। सब ययासमय कौरव-राजधानी हस्तिनापुरमें जा पहुँचे और अपने-अपने योग्य महलोंमें जाकर विश्राम करने लगे।

भगवान् श्रीकृष्ण अपने पलंगपर सो रहे थे। जब आधा पहर रात बीतनेको बाकी रह गयी, तो वे जाग उठे और अपने सनातन ब्रह्मस्वरूपका ध्यान करने लगे। इतनेहीमें स्तुति और पुराणोंके ज्ञाता मनुष्य वहाँ आकर उनकी स्तुति करने लगे। शङ्ख और मृदंगोंकी ध्वनि होने लगी। वीणा और वांसुरीका मनोरम स्वर सुनायी देने लगा। राजा युधिष्ठिरके महलमें भी माङ्गलिक गाने-बजाने होने लगे। इधर भगवान् श्रीकृष्णने शय्यासे उठकर प्रातःस्नान किया, फिर गुह्य गायत्री-मन्त्रका जप करके अग्निके पास बैठकर हवन किया। तत्पश्चात् चारों वेदोंके जाननेवाले एक हजार ब्राह्मणोंको बुलाकर प्रत्येकको एक-एक हजार गौएँ दान कों। फिर माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करके सात्यकिकी आज्ञा दी—‘ययधान ! राजमहलमें

जाकर पता तो लगाओ, क्या राजा युधिष्ठिर भीष्मजीके शान्तिपर्व चलनेको तैयार हो गये ?'

श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर सात्यकि वरुंत राजाके पास गये और कहने लगे—'राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण भीष्मजीके निकट चलनेके लिये तैयार हो गये हैं, केवल आपकी आज्ञा चाहते हैं। अब आप जो उचित समझें, करें।' यह सुनकर युधिष्ठिरने अर्जुनसे कहा—'धनञ्जय ! मेरा रथ जोनकर तैयार कराओ। आज सेना साथ नहीं जायगी, सिर्फ हम-सोमोंको ही चलना है। आगे चलनेवाले लोगोंको भी आज रोक देना चाहिये। आजसे भीष्मजी धर्मके गूढ़ रहस्योंका उपदेश करेंगे; अतः जिनको उसे सुननेमें रुचि नहीं है, ऐसे लोगोंको भीड़ में नहीं जुटाना चाहता।'

युधिष्ठिरकी आज्ञा मानकर अर्जुनने बंधा ही प्रस्थान किया। उन्होंने आकर सूचना की 'महाराजका रथ तैयार है।' तब युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एक रथपर सवार हो श्रीकृष्णके भवनपर गये। उनके पशुचरित्र सात्यकिचरित्र श्रीकृष्ण भी रथपर सवार हुए। रथपर बैठे-बैठे सबने एक-दूसरेमें प्रश्न—'रात बुझाते बीतो है न ?' फिर परस्पर चर्चासुन करते हुए सबके-सब बुद्धिज्ञानको बोल देते और जहाँ भीष्मजी वाग्योपहार सुन कर रहे थे, वहाँ जा पहुँचे। जाते ही सब लोग रथसे उतर पड़े और अपने-अपने हाथ उठाकर श्रुतियोंके प्रति सम्मान-पात्र प्रदर्शित करने लगे। तदनन्तर, सबके साथ राजा युधिष्ठिरने भीष्मजीका शान्ति किया।

श्रीकृष्ण और भीष्मकी बातचीत तथा भीष्मका आशवासन पाकर युधिष्ठिरका प्रश्न करनेके लिये तैयार होना

जनमेजयने पूछा—महामुने ! जब पाण्डव बाण-शय्यापर सोये हुए भीष्मजीकी सेवामें उपस्थित हुए, उस समय क्या-क्या बातें हुईं ? सब मुझे बताइये।

श्रीकृष्णजीने कहा—'राजन् ! उस समय वहाँ नारद आदि महर्षि तथा बहुत-से सिद्ध भी पधारे थे। महाभारतयुद्धमें जो मरनेसे बच गये थे, वे युधिष्ठिर आदि राजा तथा धृतराष्ट्र, कृष्ण, भीष्म, अर्जुन, नकुल और सहदेव भीष्मजीके पास जाकर शोक करने लगे। तब नारदजीने थोड़ी देरतक कुछ सोच-विचारकर वहाँ उपस्थित हुए राजाओं तथा पाण्डवोंसे कहा—'महानुभावो ! भीष्मजी भगवान् सूर्यकी भाँति अब अस्त होनेवाले हैं, अतः यह समय इनसे कुछ पूछनेका है; क्योंकि चारों धर्मोंके जो भावा प्रकारके धर्म हैं, उन सबको ये पूर्णरूपमें जानते हैं। ये युद्ध हो गये हैं और अपना शरीर छोड़कर उत्तम लोकमें जानेवाले हैं; इसलिये आपलोग इनसे अपने मनकी शङ्काएँ पूछें।'

नारदजीके ऐसा कहनेपर सब राजासोम भीष्मजीके निकट आ गये; किन्तु किन्हींको उनसे कुछ पूछनेका साहस न हुआ। सब एक-दूसरेका मुँह ताकने लगे। तब पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने श्रीकृष्णसे कहा—'मधुसूदन ! आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो पितामहसे प्रश्न कर सके; अतः आप ही पहले बातचीत शुरू कीजिये। तात ! हमलोगोंमें तो आप ही सबसे बड़े धर्मज्ञ हैं।' युधिष्ठिरके यह कहनेपर भगवान् श्रीकृष्णने भीष्मजीसे पूछा—'राजन् !

आपकी रात सुलझे बीतो है न ? अब तो आर्यकी बुद्धि का विवेक जाग्रत हो गया होगा। सब प्रकारके ज्ञान भाँतिन हो रहे हैं न ? अब आपके हृदयमें कुशल तो नहीं है ? मनकी धबकाहट बुर हो गयी न ?'

भीष्मजीने कहा—'शामुदेव ! मेरे शरीरको जलन, मनका मोह, पराकाष्ठ, विकसता, शोक और रोग—ये सब आपकी कृपासे तत्काल बुर हो गये थे। अब मैं हाथपर रखते हुए फलकी भाँति भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालकी बातें स्पष्ट देख रहा हूँ। वेदोंमें जो धर्म बताये गये हैं तथा वेदान्तद्वारा जिनको जाना गया है, उन सब धर्मोंको मैं आपके बरदानके प्रभावमें जानता हूँ। जनार्दन ! साष्ट्र पुरुषोंने जिस धर्मका उपदेश किया है, वह भी मेरे हृदयमें है। मैं देश, जाति और कुलके धर्मोंसे भी अपरिचित नहीं हूँ। चारों आधर्मिक धर्मोंमें जो तत्त्व है, वह भी मेरे मनमें स्फुरित हो रहा है; इस समय सम्पूर्ण राजधर्मोंको भी मैं जानता हूँ। जिस विषयमें जो कुछ भी बहने योग्य मानें हैं, उन सबका मैं वर्णन करूँगा। आपकी कृपासे अब मेरे मनमें ब्रह्मज्ञानकी बुद्धिका प्रवेश हुआ है। आपके ध्यानसे मेरा मन इतना बड़ गया है कि अब मैं जवान-सा हो गया हूँ। आपके प्रपादमें मुझे अब ब्रह्मज्ञानकारी उपदेश देनेकी शक्ति हो गयी है, तो भी मैं पूछता हूँ कि आप स्वयं ही युधिष्ठिरकी कल्याण-उपदेश क्यों नहीं देते ?

श्रीकृष्णने कहा—'भीष्म

में ही हैं। संसारमें जो भी सत्-असत् पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। अतः मैं तो यशसे परिपूर्ण हूँ ही। अब आपके पशुको बढ़ाना है, इसीलिये मैंने आपको प्रचुर वृद्धि प्रदान की है। राजन् ! जबतक यह पृथ्वी फायम रहेगी, तबतक सम्पूर्ण लोकोंमें आपकी अक्षय कीर्ति फैली रहेगी। युधिष्ठिरके पूछनेपर आप जो कुछ भी उपदेश करेंगे, वह वैदिक सिद्धान्तकी भाँति इस भूमण्डलमें मान्य होगा। जो आपके उपदेशको प्रमाण मानकर उसे अपने जीवनमें उतारेगा, वह मृत्युके बाद सब प्रकारके पुण्योंका फल प्राप्त करेगा। संसारमें आपके सुयशका अधिकाधिक विस्तार कैसे हो, यह सोचकर ही मैंने आपको विन्य वृद्धि प्रदान की है। राजन् ! ये मरनेसे बचे हुए भूपाल आपके पास धर्मकी जिज्ञासासे बँठे हैं, आप इन्हें उपदेश कीजिये। आपकी अवस्था सबसे बड़ी है, आपने शास्त्रोंका अध्ययन और सदाचारका पालन किया है, साथ ही राजधर्म तथा अन्य धर्मोंके भी विशेषज्ञ हैं। जन्मसे लेकर आजतक किसीने भी आपमें कोई दोष नहीं देखा है। सब राजा इस बातको स्वीकार करते हैं कि आप सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञाता हैं। आपने सदा देवताओं और ऋषियोंकी उपासना की है, इसलिये आपको अवश्य ही धर्मका उपदेश करना चाहिये। मनीषी पुरुषोंने यह धर्म बताया है कि विद्वान्से जब प्रश्न किया जाय तो उसको उचित है कि सुननेकी इच्छावाले लोगोंसे धर्मका उपदेश करे। जो प्रश्न करनेपर भी उपदेश नहीं देता, उसको बड़ा दोष लगता है; अतः जिज्ञासुभावसे पूछनेपर आप इन लोगोंको अवश्य ही उपदेश करें।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णकी बात सुनकर महातेजस्वी भीष्मजी बोले—‘गोविन्द ! आपके प्रसादसे इस समय मेरा मन स्थिर है और वाणीमें भी बल आ गया है। अब धर्मात्मा युधिष्ठिर मुझसे धर्मविषयक प्रश्न करें; इससे मुझे प्रसन्नता होगी और मैं सम्पूर्ण धर्मोंका उपदेश कर सकूँगा। जिनमें धर्म्य, इन्द्रियनिग्रह, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, ओज और तेज सदा वर्तमान रहते हैं, जो सम्बन्धियों, अतिथियों, सेवकों तथा शरणागतोंका सदा सम्मान करते हैं, सत्य, दान, तप, शूरता, शान्ति, दक्षता

तथा स्थिरता आदि समस्त सद्गुण जिनमें सदा मौजूद रहते हैं, जो कामनासे, क्रोधसे, भयसे अथवा किसी स्वार्थके लोभसे भी कभी अधर्म नहीं करते, यज्ञ, वेदाध्ययन और धर्ममें जिनकी सदा प्रवृत्ति रहती है, जिन्होंने शास्त्रोंका रहस्य श्रवण किया है तथा जो नित्य शान्त रहते हैं, वे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ही मुझसे प्रश्न करें।’

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! धर्मराज युधिष्ठिरको आपके निकट आनेमें संकोच हो रहा है, ये अपनेको अपराधी मानकर भयभीत हैं। जो पूज्य थे, आदरके पात्र थे, जिनकी इनमें भक्ति थी तथा जो गुरुजन, सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव एवं अर्घ्य पानेयोग्य थे, उन सबको इन्होंने ऋणोंसे विदीर्ण किया है; इसी डरसे आपके पास नहीं आते हैं।

भीष्मजी बोले—श्रीकृष्ण ! जैसे ब्रह्म, अध्ययन और तप—यह ब्राह्मणोंका धर्म है, उसी प्रकार युद्धमें विपक्षीके शरीरको मार गिराना भी क्षत्रियोंके लिये धर्म ही है। ताऊ, चाचा, बाबा, भाई, गुरु, सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धव—कोई भी क्यों न हो, यदि वह असत्यके मार्गपर चल रहा है तो युद्धमें उसे मार डालना धर्म ही है। गुरु भी यदि लोभसे फँसकर पापका साथ देता हो और अपने नियत आचारका त्याग कर चुका हो तो उसे जो युद्धमें मार डालता है, वह क्षत्रिय धर्मज्ञ ही है। जो लोभवश धर्मकी सनातन मर्यादापर दृष्टि नहीं रखता, उसको युद्धमें मारनेवाले क्षत्रियको धर्मज्ञ ही समझना चाहिये। युद्धमें खूनकी नदी बहा देनेवाला क्षत्रिय धर्मज्ञ ही माना जाता है। संग्राममें शत्रुके ललकारनेपर क्षत्रियके लिये लड़ना अनिवार्य हो जाता है। मनुने कहा है कि युद्ध क्षत्रियके लिये धर्मका पोषक, स्वर्ग प्रदान करनेवाला और लोकमें यश फैलानेवाला है।

भीष्मके ऐसा कहनेपर धर्मनन्दन युधिष्ठिर बड़ी विनयके साथ उनके पास गये और उनकी दृष्टिके सामने खड़े हो गये। फिर उनके चरणोंमें मस्तक झुका दिया। भीष्मने भी आश्वासन देकर उन्हें प्रसन्न किया और उनका मस्तक सूँघकर कहा—‘बेटा ! बैठ जाओ, डरो मत; संकोच छोड़कर जो कुछ पूछना हो, पूछो।’

युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मका उनसे राजोचित शिष्टाचारका वर्णन

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण और भीष्मको प्रणाम करके समस्त गुणजनोंकी आज्ञा लेकर प्रश्न किया।

युधिष्ठिर बोले—पितामह ! धर्मके जाननेवाले ऐसा मानते हैं कि राजाका धर्म श्रेष्ठ है; अतः आप मुझे राजधर्मोंको विस्तारके साथ बताइये। राजाके धर्मोंमें

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—सबका समावेश है। जैसे घोड़ोंको काबूमें रखनेके लिये सगम और हाथीको बरामें करनेके लिये अंकुश है, उसी प्रकार समस्त संसारको मर्यादाके भीतर रखनेके लिये राजधर्म रस्सोकाम काम देता है। प्राचीन राजर्षियोंने जिसका सेवन किया है, उस राजधर्ममें यदि राजा मोहवशा प्रमाद कर बैठे तो संसारको व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाती है और सब लोग व्याकुल हो जाते हैं, जैसे सूर्यवेक उदय होते ही अन्धकारका नाश कर देते हैं, उसी प्रकार राजधर्म मनुष्योंको अशुभ गतिका निवारण करता है। अतः सबसे पहले मेरे लिये राजधर्मोका ही निरूपण कीजिये; क्योंकि आप सम्पूर्ण धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं। हम सब लोगोंको आपहीसे शास्त्रोंका परम रहस्य ज्ञात हो सकता है। भगवान् धीरेधीरे भी बुद्धिमें आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।

भीष्मजीने कहा—मैं महान् धर्मको, विश्वविद्याता धीकृष्णको और सम्पूर्ण ब्राह्मणोंको नमस्कार करके सनातन धर्मोंका वर्णन कर रहा हूँ। युधिष्ठिर! अब तुम एकाग्र होकर मेरे बतिये हुए राजधर्मोंको तथा और जो कुछ सुनना चाहते हो, उसको भी पूर्णरूपसे सुनो; कुछश्रेष्ठ! राजाके लिये सबसे पहले प्रजाका रक्षण करना—उसे प्रसन्न रखना आवश्यक है। इसके लिये वह देवताओंका विधिभक्त पूजन और ब्राह्मणोंका पूर्ण सम्मान करे; क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणोंके पूजनसे वह धर्मके श्रेष्ठसे भुक्त होता है और सारी प्रजा उसका आदर करती है। बेटा! तुम विजयके लिये सदा पुरुषार्थ करते रहना; पुरुषार्थके बिना केवल देवसे राजाओंका काम नहीं सिद्ध होता। यद्यपि कार्यकी सिद्धिमें देव और पुरुषार्थ दोनों साधारण कारण हैं, तथापि मैं इन्हेसे पुरुषार्थकी ही श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि आरम्भ किया हुआ काम खराब हो जाय तो इसके लिये मनमें दुःख न मानना, अपनेको सदा प्रयत्नमें ही लगाये रखना—यही राजाओंको प्रधान नीति है।

सत्यके सिवा दूसरी कोई भी चीज राजाओंको सिद्धि प्रदान करनेवाली नहीं है, सत्यपरायण राजा इस सौकमें और परसौकमें भी सुख पाता है। श्रेष्ठियोंके लिये भी सत्य ही परम धन है। इसी प्रकार राजाओंके लिये भी सत्यके सिवा दूसरा कोई साधन विश्वास दिलावेचला नहीं है। जो राजा गुणवान्, शीलवान्, मनपर काबू रखनेवाला, कोमल स्वभाववाला, धर्मपरायण, जितेन्द्रिय, प्रसन्नमुख और बहुत देनेवाला है, वह कभी राज्य-सम्पत्ति खो नहीं होता। कुटुम्बनन्दन! सदा कोमल ब्रतवि करनेवाले राजाको वान कोई नहीं मानता और सदा कठोरतापूर्वक शासन करनेवाले

भी सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं; इसलिये तुम्हें समझानुसार कोमलता और कठोरता दोनोंका आश्रय लेना चाहिये। बेटा! तुम ब्राह्मणोंको कभी दण्ड न देना। इस विषयमें मनुजोंने दो श्लोक कहे हैं, उनका भाव तुम्हें अपने हृदयमें सदा धारण किये रहना चाहिये। अग्नि जलसे, क्षत्रिय ब्राह्मणसे और सोहा पत्थरसे प्रकट हुआ है; इन सबका तेज दूसरी जगह काम देता है, मगर अपनेको उत्पन्न करने वाले कारणमें जाकर शान्त हो जाता है। जब सोहा पत्थरपर मारा जाता है, आम पानीपर लगायी जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मणसे द्वेष करने लगता है तो ये तीनों ही दुर्बल पड़ जाते—दुःख उठाते हैं। यह सोचकर तुम्हें ब्राह्मणोंकी सदा नमस्कार ही करना चाहिये। यद्यपि ऐसी बात है, तथापि यदि ब्राह्मण भी सीतों लोकोकी हानि पहुँचाने लगे तो उनको भी बाहुबलसे परास्त करके दण्ड देनेमें कोई हर्ज नहीं है। इस विषयमें शुकाचार्यने दो श्लोक बतिये हैं, उनका अर्थिप्रार्थन ध्यान देकर सुनो 'ब्राह्मण वेदान्तका विद्वान् ही क्यों न हो, यदि वह शास्त्र उठाकर युद्धमें सामना करनेके लिये आ रहा हो तो धर्मपालन करनेवाले राजाको उसे स्वधर्मनुसार अवश्य रूढ़ करना चाहिये; उसके द्वारा नष्ट होते हुए धर्मको जो रक्षा करता है, वही धर्मज्ञ है; आततायीको मारनेसे वह धर्मका नाशक नहीं माना जाता। क्रोधमें भरे हुए आततायीको तो उसका क्रोध ही नष्ट करता है। इतना अवश्य ध्यान रखनेकी बात है कि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे देशान्तावेका ही दण्ड देना चाहिये; उसे शारीरिक दण्ड देनेका विधान नहीं है। जैसे वस्त्र श्रेष्ठका सूयं न तो अधिक ठंडक पहुँचाता है और न कड़ी धूप ही करता है, उसी प्रकार राजाको भी न बहुत कोमल होना चाहिये, न अधिक कठोर। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आश्रय—इन चार प्रमाणोंके द्वारा अपने-परायणकी पहचान करने चाहिये। तुम सब प्रकारके व्यसनोंका परित्याग कर देना; क्योंकि व्यसनमें आसक्त हुए मनुष्यका संसारमें भ्रमन ही है। प्रजाके साथ राजाका ब्रतवि गर्भिणी स्त्रीके स्वयंसेवा चाहिये। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने मनको अपने शरीरमें मोत्रन आदिका त्याग करके केवल दण्ड ही अपने ध्यान रखती है, उसी प्रकार धर्मज्ञ राजाके मनमें मत्ताईका लक्षण न करके ब्रित्तमें ही अपने धर्मके काम करना चाहिये।

पान्धुनन्दन! तुम धर्मके अर्थपरिचयोंको दण्ड देनेसे बचना चाहिये, उस राज्यके साथ अधिक हितकर

हैं, उसे चुनो। नाकरलोग अधिक मुंहलगे हो जानेसे मालिकका अपमान कर बैठते हैं, अपनी मर्यादापर कायम नहीं रहते और स्वामीकी आज्ञाका उल्लङ्घन करने लगते हैं। यही नहीं, वे राजापर भी हुकुम चलाने लंगते हैं और रिश्वत लेकर जालसाजी करके राजकार्यमें विघ्न डाला करते हैं। बनावटी आज्ञापत्र निकालकर राजाके सारे राज्यको चूस लेते हैं। रनवासके पहरेदारोंसे मिलकर अन्तःपुरमें जाने लगते हैं और राजाके समान वेप-भूषा बनाये फिरते हैं। यहांतक कि स्वामीके निकट निर्लज्जताका व्यवहार करते और उसकी गुप्त बातें भी प्रकट कर देते हैं। हंसी-मजाक करनेवाले और कोमल स्वभाववाले राजाको पाकर भृत्यगण उसकी अवहेलना करने लगते हैं और उसकी सवारीमें रहनेवाले हाथी, घोड़े तथा रथपर भी अकेले चढ़कर घूमते हैं। आम दरबारमें बैठकर दोस्तोंकी तरह बराबरीका बर्ताव करते हुए कहते हैं 'राजन् ! आपसे इस कामका होना कठिन है, आपका यह बर्ताव बुरा है।'

राजाको कुपित होते देख हंस देते हैं और उससे सम्मानित होकर भी विशेष प्रसन्न नहीं होते। राजकीय गुप्त बातों तथा राजाके दोषोंको दूसरोंपर प्रकट कर देते हैं और उसकी आज्ञाको अवहेलनापूर्वक खिलवाड़ करते हुए पूरी करते हैं। पास ही खड़ा होकर राजा सुनता रहता है और वे निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने, खाने, नहाने और चन्दन लगाने आदिकी दिल्लगी उड़ाया करते हैं। उनके अधिकारमें जो काम सौंपा गया होता है, उसको वे बुरा बताते और छोड़ भी देते हैं; उन्हें जितनी तनख्वाह दी जाती है, उतनेसे संतोष नहीं होता। जैसे लोग डोरेमें बंधी हुई चिड़ियाके साथ खेलते हैं, उसी तरह वे भी राजाके साथ खेलना चाहते हैं और साधारण लोगोंसे कहते फिरते हैं कि 'राजा तो हमारे ही हाथमें है, उसपर हमारा ही हुकम चलता है।' युधिष्ठिर ! राजा जब परिहासशील और कोमल स्वभावका हो जाता है, तो ऊपर बताये हुए तथा दूसरे भी बहुत-से दोष प्रकट हो जाते हैं।

राजाके नीतिपूर्ण बर्तावका वर्णन

श्रीकृष्णजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! राजाको उद्योग होना चाहिये। जो स्त्रीकी भाँति बेकार बंठा रहता है, उस राजाकी प्रशंसा नहीं होती। इस विषयमें शुक्राचार्यका कहा हुआ एक श्लोक है, जिसका भाव इस प्रकार है। जैसे साँप बिलमें रहनेवाले चूहोंको निगल जाता है, उसी प्रकार दूसरे राजाओंसे लड़ाई न करनेवाले राजा और घर न छोड़नेवाले ब्राह्मण—इन दोनोंको पूज्यो निगल जाती है। अर्थात् वे पुरुषार्थ-साधन किये बिना ही मर जाते हैं। जो संधि करनेके योग्य हों, उनसे संधि करो; जो विरोधके पात्र हों, उनसे विरोध करो। राज्यके सात अङ्ग हैं—राजा, मन्त्री, मित्र, खजाना, देश, किला और सेना। इनमेंसे किसीके भी विपरीत यदि कोई आचरण करे तो वह गुरु हो या मित्र, मार डालनेके ही योग्य है। महाराज भरतका कहा हुआ एक पुराना श्लोक है, जो बृहस्पतिके मतानुसार राजाके अधिकारपर प्रकाश डालता है। उसका भाव यों है—धर्म-धर्म में भरकर कर्तव्य-अकर्तव्यका ध्यान न रखनेवाला और कुमार्गपर चलनेवाला मनुष्य यदि अपना गुरु हो, तो भी उसको दण्ड देनेका सनातन विधान है। राजा सगरने तो

नगरके लोगोंका हित करनेकी इच्छासे अपने ज्येष्ठ पुत्रका भी त्याग कर दिया था। उसका नाम था 'असमञ्जस'। वह पुरवासियोंके बालकोंको पकड़कर सरयू नदीमें डुबा दिया करता था, इसीलिये उसके पिताने उसे घरसे निकाल दिया। अतः प्रजावर्गको प्रसन्न रखना ही राजाका सनातन धर्म है। सत्यको रक्षा और व्यवहारमें सरलता भी राजोचित कर्तव्य है। दूसरोंका धन चोपट न करे; जिसको जो कुछ देना हो, समयपर देनेकी व्यवस्था करे। पराक्रमी, सत्यवादी और क्षमाशील बना रहे। ऐसा करनेवाला राजा कभी सन्मार्गसे भ्रष्ट नहीं होता।

जो मनपर अधिकार रखता है, जिसने क्रोधको जीत लिया है, जिसे शास्त्रके तापत्यका निश्चय है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके प्रयत्नमें लगा रहता है और अपने गुप्त विचार दूसरोंपर प्रकट नहीं होने देता, वही राजा होने योग्य है। राजाको चारों वर्णोंके धर्मोंकी रक्षा करनी चाहिये। संसारको धर्मसंकरतासे बचाना उसका सनातनधर्म है। राजा किसीपर भी विश्वास न करे, विश्वसनीय व्यक्तिका भी

अत्यन्त विदवास न करे । राजनीतिके छः गुण होते हैं—
सधि, विग्रह, धान, आमन, ईर्ष्याभाव और समाध्यः । इन
मन्त्रके गुण-दीर्घोपर सदा दृष्टि रखते । धर्मराजके समान
न्यायकर्ता हो और कुबेरके सदृश धनका भंडार इत्रट्टा करे ।
स्थान, वृद्धि तथा क्षयके हेतुमूल दशवर्गोंका सदा ज्ञान
रखे । जिनके भरण-न्योपनयका प्रबन्ध न हो, उनका पोषण
करे । राजाको सदा प्रसन्नवदन रहना और हँसकर बातें
करनी चाहिये । वृद्धोंकी सेवा करे । आत्मस्य और सोमको
ध्याय दे । सत्पुरुषोंके व्यवहारमें मन लगावे, संतुष्ट
होनेयोग्य स्वभाव बनाये रखते । श्रेष्ठपुरुषोंका धन न छीने ।
दुष्टोसे धन लेकर सत्पुरुषोंको दान करे । स्वयं श्रेष्ठ और
कर सं तथा दूसरोंको भी दान दे, मनको व्यसमें रखे ।
समयपर दान करे और सदा शुद्ध सदावारी रहे ।

जो शूरोर और भवत हों, जिन्हें दुरमन फोड़ न सकें,
जो कुलीन, नीरोग और शिष्ट हो तथा शिष्ट पुरुषोंसे सम्बन्ध
रखते हो, अपने सम्मानके रक्षक हों, दूसरोंका अपमान न

१. यदि शत्रुपर चढ़ाई की जाय और वह अपनेने
बलवान् सिद्ध हो तो उमने मेल कर लेना 'मधि' नामक गुण
है । यदि दोनोंमें समान बल हो तो लड़ाई जारी रखना
'विग्रह' है । यदि शत्रु दुर्बल हो तो उस अवस्थामें उनके दुर्ग
आदिपर जो आक्रमण किया जाता है, उमें 'धान' कहते हैं ।
अगर अपने ऊपर शत्रुकी ओरने आक्रमण हो और शत्रुका
पक्ष प्रबल जान पड़े तो उस समय अपनेको दुर्ग आदिमें
छिपाये रखकर जो आत्मरक्षा की जाती है, वह 'आसन'
कहलाता है । यदि चढ़ाई करनेवाला शत्रु मध्यम श्रेणीका
हो तो 'द्विर्षाभाव' का सहारा लिया जाता है । उमने ऊपर
कुछ और भाव दिखाया जाता है और भीतर कुछ और भाव
रखना जाना है । जैसे आधी मेना दुर्गमें रखकर आत्मरक्षा
करना और आधीको भेजकर शत्रुओंके अन्न आदि सामग्रीपर
कब्जा करना आदि कार्य 'द्विर्षाभाव' नीतिके अन्तर्गत है ।
आक्रमणकारोंमें पीठिन होनेपर किसी भिय राजाका सहारा
लेकर उमने मांग लड़ाई छेड़ना 'समाश्रय' कहलाता है ।

२. मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग (किला), यज्ञाना और दण्ड—
ये पाँच 'प्रवृत्ति' बहे गये हैं । ये ही अपने और शत्रुपक्षके
मिलाकर 'दशवर्ग' कहलाते हैं । यदि दोनोंके मन्त्री आदि
ममान हो तो ये स्थानके हेतु होने ह अर्थात् दोनों पक्षकी
स्थिति वायम रहती है । अगर अपने पक्षमें इनकी अधिकता
हो तो वे स्थिति सदा नये है और शत्रुकी ही तो क्षयके

करते हों, धर्मपरायण, साधु और पर्वतोंके समान अत्यन्त
रहनेवाले हों, शास्त्रोंके विद्वान्, लोक-व्यवहारके ज्ञाना और
शत्रुओंकी गति-विधिपर दृष्टि रखनेवाले हों—ऐसे लोगोंको
ही सहायक बनावे । उन्हें अपने समान ही गुण-भोगकी
सुविधा दे । सिर्फ राजीवित छत्र-धारण और हृकूमन
करना—इन्हीं दो बातोंपर अधिकार अपने पाय उनसे अधिक
रखे । सामने अपना परोक्षमें उनके प्रति एक-सा ही बनाव
करे । ऐसा करनेवाले राजाको बर्षी बन्ध नहीं उठाना
पड़ता । जो सब पर संदेह करता और सबके धनका अपहरण
करता है, वह लोभी और बुद्धिल राजा एक दिन अपने ही
लोगोंके हाथ मारा जाता है । जो भूपात पाहूर-भीतरसे
शुद्ध रहकर प्रजाके हृदयको अपनातेका प्रयत्न करता है,
वह शत्रुओंका आक्रमण होनेपर भी उनके यशमें नहीं
पड़ता । यदि कही परास्त हुआ, तो भी पीछे उन्हीं प्रजाओंकी
सहायतासे पूर्ववत् अपना स्थान प्राप्त कर लेता है । जो बोध
नहीं करता, किसी व्यसनमें नहीं फँसता, हल्का कर लगाता
और इन्द्रियोपर काबू रखता है, वह सब लोगोंका विश्वास-
पात्र बन जाता है । जो बुद्धिमान्, त्यागी, शत्रुओंकी कमजोरी
समझने में प्रवीण, चारों वर्णोंके न्याय-अन्यायको जानने-
वाला, शोष काम करनेवाला, बोधको जीतनेवाला, उदार-
चित्त, कोमल स्वभाववाला, काम करनेमें संतन्य और
आत्मप्रसंतासे दूर रहनेवाला है, जिसके राज्य में मनुष्य
निर्मय होकर विचरते हैं, वही राजाओंमें सर्वश्रेष्ठ है ।

जिसके राज्यमें रहनेवाले नागरिक न्याय-अन्यायको
समझते हों, जिसके देशके लोग अपने धर्म-कर्ममें संतन्य,
शरीरमें आसक्ति न रखनेवाले, जितेन्द्रिय, यशमें रहने-
वाले, आत्मापातक, कलहसे दूर रहनेवाले और दानमें
दक्ष रहनेवाले हो, वही धातव्यमें राजा है । जिस राजाने
राज्यमें छल, कपट, बूटनीति, माया और मात्स्यका सत्यका
अभाव हो, उसीके सनातन धर्मका निर्वाह होता है । जो
विद्वानोंका आदर करता और शास्त्रीय अर्थके चिन्तन तथा
परोपकारों कायमें लगा रता है, जो सत्पुरुषोंके भाग्यपर
धनता और दान किया करता है, शत्रु जिसके गुप्त विचारोंको
न जान सकें, जानूसोंको न पहचान सकें, वही राजा राज्य
धनमें घोष समाना जाता है । राज्य धातव्यमें राजाओंके
लिये प्रजाओंकी रक्षामें बढ़कर और बौद्ध सनातन धर्म नहीं
है । मनुने राजधर्मका वर्णन करते हुए दो श्लोक कहे हैं,
जिनका भाव इस प्रकार है । जैसे समुद्रकी यात्रामें टूटी हुई
नौकाका त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक
मनुष्यको चाहिये कि वह उपदेश न देनेवाले भाषायें,

वेद-मन्त्रका उच्चारण न करनेवाले ऋत्विक्, रक्षा न करनेवाले राजा, फट्ट वचन बोलनेवाली स्त्री, गांवमें रहनेकी

इच्छावाले ग्वाले और जंगलमें रहना पसंद करनेवाले नाई—इन छःको त्याग दे ।

राज्यशासनके कुछ साधनोंका वर्णन

भीष्मजी बोले—युधिष्ठिर ! यह प्रजापालन समस्त धर्मोंका सार है । भगवान् बृहस्पतिजी भी इस न्यायानुकूल धर्मकी प्रशंसा करते हैं । उनके सिवा भगवान् विशालाक्ष, तपस्वी शुक्राचार्य, इन्द्र, दक्ष, मनु, भरद्वाज, मुनिवर गौरशिरा और राजधर्मकी रचना करनेवाले अन्यान्य वेदवादियोंने भी प्रजापालनकी ही प्रशंसाकी है । अब मैं तुम्हें राजाओंके कुछ साधन सुनाता हूँ—गुप्तचर (जासूस) रखना, दूसरे राष्ट्रोंमें अपना प्रतिनिधि (राजदूत) नियुक्त करना, समयपर वेतन और भत्ता देना, युक्तिके साथ कर लेना, अन्यायसे प्रजाको न चूसना, सत्पुरुषोंसे मिल करना, चीरता, कार्यकुशलता, सत्य, प्रजाका हितचिन्तन, सत्पुरुषोंको न त्यागना, कुलीन मनुष्योंको पास रखना, संग्रहयोग्य धान्यादिको जमा करना, बुद्धिमानोंको अपना सहायक बनाना, सेनाको उत्साहित करना, प्रजाकी स्वयं देख-भाल करना, काम करनेमें कष्टका अनुभव न करना, कोषकी वृद्धि करना, स्वयं नगरकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध करना, इस विषयमें दूसरोंके विश्वासपर न रहना, पुरवासियोंके कोई गुट बना लिया हो तो उसमें फूट डलवा देना, शत्रु, मित्र और मध्यस्थोंपर यथोचित दृष्टि रखना, सेवकोंमें गुटवंदी न होने देना, अपने-आप नगरका निरीक्षण करना, नीतिधर्मका पालन करना और दुष्टोंको देशसे बाहर निकाल देना—ये सब बातें राजधर्मकी मूल हैं । बलवान् पुरुषको

अपने दुर्बल शत्रुको भी छोटा न समझना चाहिये । आग थोड़ी-सी हो तो भी जला डालती है और विष बहुत कम मात्रामें हो तो भी मार डालता है । जो राजा क्रूर होते हैं वे अपने विशाल राज्यको काबूमें नहीं रख सकते और जो बहुत कोमल प्रकृतिके होते हैं वे इस उच्च पदका भार नहीं सँभाल सकते । इसलिये राजामें क्रूरता और कोमलता दोनोंहीका मेल रहना चाहिये । युधिष्ठिर ! यह मैंने तुम्हें थोड़ा-सा राजधर्म सुनाया है । अब तुम्हें जिस बातमें संदेह हो वह पूछ लो ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! भीष्मजीका वक्तव्य सुनकर भगवान् व्यास, देवस्थान, अश्रम, वासुदेव, कृप, सात्यकि और सञ्जय बड़े प्रसन्न हुए और 'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा' कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे । फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरने नेत्रोंमें जल भरकर उनके चरण छुये और कहा, 'दादाजी ! अब सूर्य अस्त होनेवाला है, इसलिये मैं कल आपसे अपना संदेह पूछूंगा ।'

इसके बाद श्रीकृष्ण, कृपाचार्य और युधिष्ठिरादि पाण्डवोंने ब्राह्मणोंको नमस्कार कर भीष्मजीकी परिक्रमा की और फिर रथोंपर सवार हो दृषद्वती नदीके तीरपर आये । वहाँ स्नान, तर्पण, संध्योपासन और जपादिसे निवृत्त हो वे हस्तिनापुरको चले आये ।

ब्रह्माजीके नीतिशास्त्र तथा राजा पृथुके प्रसंगका वर्णन

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! दूसरे दिन प्रातःकाल ही पाण्डव और यादवलोग नित्यकर्मसे निवृत्त हुए और फिर रथोंपर चढ़कर कुरुक्षेत्रकी ओर चल दिये । वहाँ भीष्मजीके पास पहुँचकर उन्होंने व्यासादि महर्षियोंको प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पा वे भीष्मजीके चारों ओर बैठ गये । फिर परमतेजस्वी राजा युधिष्ठिरने भीष्मजीका यथायोग्य सत्कार करते हुए हाथ जोड़कर पूछा, 'पितामह ! लोकमें जो यह 'राजा' शब्द प्रसिद्ध है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई—यह मुझे बतानेकी कृपा करें । जिसे हम 'राजा'

कहते हैं वह भी एक मनुष्य ही है । उसके शरीर और प्राण भी अन्य पुरुषोंके समान ही हैं तथा जन्म-मरण आदि सब गुणोंमें भी वह दूसरे मनुष्योंकी तरह ही है । फिर भी शूरवीर और सत्पुरुषोंसे पूर्ण इस सारी पृथ्वीका वह अकेला ही क्यों पालन करता है ? मुझे इसका यथार्थ कारण जाननेकी अभिलाषा है, अतः आप इसका पूरा रहस्य बतानेकी कृपा करें ।'

भीष्मजी बोले—राजन् ! सत्ययुगके आरम्भमें राज्य या राजा नामकी कोई चीज नहीं थी । उस समय न

कोई दण्ड या और न दण्ड देनेवाला। सब प्रजा आपसमें धर्मके नाते ही एक-दूसरेकी रक्षा करती थी। पीछे सबलोग मोहमें पड़ गये, इससे उनका विवेक नष्ट हो गया और विवेकका नाश होनेसे धर्मवृद्धि भी जाती रही। सब लोभमें फँस गये और जो वस्तुएँ जिनके पास नहीं थीं, उन्हें पानेके लिये सत्तापित रहने लगे। इतनेहीमें काम नामक एक दूसरे दोषने उन्हें धर दबाया। फिर कामके अधीन देवकर उनपर रागने भी अपना आधिपत्य जमा दिया। इस प्रकार रागके अधीन होकर ये कर्तव्याकर्तव्यकी भूल गये। इसलिये गम्प-अगम्प, वाच्य-अवाच्य, भक्ष्य-अभक्ष्य और बोध-अबोध कोई भी बात उनकी दृष्टिमें स्वाग्य न रही। इस प्रकार मानव-समाजमें धर्मविप्लव हो जानेसे वेद भी लुप्त होने लगा और वेदका सोप होनेसे धर्ममर्यादा ही नष्ट हो गयी। इससे देवताओंको बड़ा क्रोध हुआ और वे ब्रह्मजोके शरणमें गये। ब्रह्मजोसे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, 'भगवन्! मनुष्यलोकमें जो सनातन वेद था, उसको लोभ-मोह आदि दूषित भावोंने नष्ट कर डाला है, इससे हमें बड़ा भय हो रहा है। भगवन्! वेदका नाश होनेसे धर्म भी नष्ट हो गया है। मनुष्योंने यज्ञ-यागादि सभी शुभकर्म छोड़ दिये हैं; इसलिये हम बड़े संशयमें पड़ गये हैं। आप हमारे लिये जो हितकर हो ऐसा कोई उपाय सोचिये।'

सब स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माने उनसे कहा, 'देवताओ! डरो मत, मैं तुम्हारे कल्याणका कोई साधन सोचता हूँ।' इसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धिसे एक साल अध्यायोंका एक नीतिशास्त्र रचा। उसमें अर्थ, धर्म, काम—इस त्रिवर्गका वर्णन था। यह ग्रन्थ 'त्रिवर्ग' नामसे विख्यात हुआ। चौथा वर्ष भीस है, उसके फल और गुण इनसे प्यक् हैं। युधिष्ठिर! इस शास्त्रमें, साम, दान, दण्ड, भेद और उपेक्षा—इन पाँचों उपायोंका पूरा-पूरा वर्णन है। भय, सत्कार और घनसे की जानेवाली प्रमत्ता; होन, मध्यम और उत्तम संधिपोंका, चढ़ाई करनेके चार प्रकारके अवसरोंका तथा अर्थ, धर्म और कामके विस्तारका भी इसमें अच्छी तरह निरूपण किया गया है। इसके सिवा इसमें प्रकट और गुप्त सेनाओंका भी विवेचन हुआ है; इनमें प्रकट सेना आठ प्रकारकी है और गुप्तके अनेको भेद हैं। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, बैंगारमें पकड़े हुए घोष, नीका, जूत और युद्ध-सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओंका उपदेश करनेवाले—ये प्रकट सेनाके आठ अङ्ग हैं। यही नहीं, इसमें मार्गके गुण, भूमिके गुण, रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सेनाको पुष्ट करनेके अनेकों उपाय, तरह-तरहकी व्यूहरचना, अनेकों

प्रकारके युद्ध-कौशल, युद्ध करनेकी और उतते निश्चय भागनेकी रीतियाँ तथा शास्त्रोंकी रक्षाके उपाय भी बताये गये हैं। दूतकी शक्तिते होनेवाली राष्ट्रकी बुद्धि, शत्रु, मित्र और तटस्थोंके विभाग, बलवालोंके नाश और अबरोध, शासनसम्बन्धी अनेकों सूक्ष्म कार्य, मत्तप्रोधा और राज्य-संचालनकी विधियाँ, जिनके भरण-भोगका कोई प्रबन्ध न हो उनका पालन और उनकी देख-रेख, गुणात्रकी दान देना, व्यसनसे बचना, राजाके गुण, सेनापतिके सत्त्व, अर्थ, धर्म और कामके साधन तथा उनके गुण-दोष, अपने आधित्योंकी आजोबिकाका विचार, सबके प्रति तरांक रहना, प्रमादसे बचना, जो वस्तु मिली न हो उसे पाना और प्राप्त वस्तुकी युद्ध करना, भङ्गी हुई वस्तु गुणात्रोंके दान करना, धर्मके लिये धन लगाता तथा भोग और दुःख निवृत्तिमें भी धनका उपयोग करना—इन सब बातोंका इस शास्त्रमें वर्णन हुआ है। काम और प्रोद्यते होनेवाले ददा उप व्यसनोंका भी इसमें उल्लेख है। नीति-शास्त्रके आचार्योंने सुगया, छूत, मद्यपान और स्त्रीप्रसंग—ये चार कामजिनसे तथा धार्मिकी बटुता, अप्रति, मार-पीट, शरीरको कंद कर लेना, त्याग देना और आर्थिक हानि पहुँचाना—ये छः प्रोद्यते होनेवाले व्यसन बताये हैं। तटस्थरहने पक्व और उनकी त्रियाओंका, शत्रुके राष्ट्रकी पीडित करनेका तथा उसकी सेनापर चोट करने और उसके नियासस्थानोंको नष्ट करनेका भी इस ग्रन्थमें उल्लेख है। पुराने इमारतों और बुझोंको ध्वंस करना, सेती-शारीकी विधि, सेनाकी सामग्री, कच-धारण और कदवादि बनानेकी विधि—ये सब बातें इस शास्त्रमें बताये गयी हैं। दोल, नगाड़े, राष्ट्र और हुनुभि आदि रणवाटोंको बजाना, भणि, पग, पुष्पी, यस्त्र, दास-दासी और सुवर्ण—इन छः पदार्थोंके प्राप्त करना तथा शत्रुओंको इन छः चीजोंका नाश करना, नये जोते हुए भ्रान्तमें शान्ति स्थापित करना, सन्तुष्टयोंका सत्कार, विद्वानोंके साथ मेल-जोल बढ़ाना, दान और होमकी विधि, भोजनकी व्यवस्था, सर्वदा आस्तिकबुद्धि रखना, अकेले होनेपर भी उठने-बैठनेकी रीति, सत्यता, मधुरभाषण तथा उत्सव और समाज आदिके अवसरपर होनेवाली परिसू बाने—इन सभीका इस शास्त्रमें निरूपण हुआ है। देश, जाति और कुलके धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष—इन चारों पदार्थोंके सतन और इन्हें प्राप्त करनेके उपाय तथा जिन साधनोंसे मनुष्यका आर्यधर्मसे पतन न हो, उन सभीका इसमें वर्णन है। इस नीतिशास्त्रकी रचना हो जानेपर ब्रह्मजोकी बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने इन्द्रादि देवताओंमें

ब्रह्माजी बोले—यह दण्डनीति नामसे विख्यात विद्या तीनों लोकोंमें विद्यमान है। वास्तवमें दण्डसे ही राजव्यवस्था चलती है। यह दण्डनीति छः गुणोंसे युक्त है। महात्माओंमें इसका अग्रस्थान होगा। इस शास्त्रमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—सभीका विचार है।

तब सबसे पहले भगवान् शंकरने उस नीतिशास्त्रको ग्रहण किया। उन्होंने जीवोंकी आयु घटती देख उस शास्त्रको संक्षिप्त किया। यह ग्रन्थ 'वेशालाक्ष' कहलाया। इसे इन्द्रने ग्रहण किया। इसमें कुल दस हजार अध्याय थे। फिर भगवान् इन्द्रने भी इसे संक्षिप्त किया और इसमें केवल पांच हजार अध्याय रह गये, तब यह ग्रन्थ 'वाहुदन्तक' कहलाया। इसके बाद बृहस्पतिजीने इसे तीन सहस्र अध्यायोंमें संकुचित कर दिया। यह ग्रन्थ 'वाहस्पत्य' नामसे प्रसिद्ध हुआ। फिर योगाचार्य शुक्रजीने इसे संक्षिप्त करके एक हजार अध्यायोंमें रचा। इस प्रकार महर्षियोंने मनुष्योंकी आयुका ह्रास होते देखकर लोकहितकी दृष्टिसे इस शास्त्रको बहुत संक्षिप्त कर दिया।

इस नीतिशास्त्रकी रचनाके बाद मृत्युकी मानसी पुत्री मुनीयासे राजा अंगके द्वारा वेनका जन्म हुआ। वह राग-द्वेषके अधीन होकर प्रजामें अधर्मका प्रचार करने लगा। यह देखकर वेदवादी मुनिजनोंने उसे अभिमन्त्रित कुशाओंसे मार डाला। फिर देशमें अराजकता फैली देखकर उन्होंने



वेनके दाहिने हाथका मन्थन किया। उससे एक इन्द्रके समान रूपवान् पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीरपर कवच सुशोभित था, कमरमें तलवार लटक रही थी तथा कंधेपर धनुष-बाण थे। वह वेद-वेदाङ्गोंका ज्ञाता और धनुर्विद्यामें पारंगत था। उस वेनपुत्रने हाथ जोड़कर ऋषियोंसे कहा, 'मुनिगण! मुझे धर्म और अर्थका निर्णय करनेवाली सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त है। इसके द्वारा मुझे क्या करना चाहिये— यह ठीक-ठीक बताइये।' देवता और महर्षियोंने कहा, 'जिस कार्यमें तुम्हें धर्मकी स्थिति जान पड़े, उसीकी निःशङ्क होकर करो। प्रिय-अप्रियकी परवा न करके सब जीवोंके प्रति समान भाव रखो। काम, क्रोध, लोभ और मानको दूरसे ही नमस्कार कर दो। सर्वदा धर्मपर दृष्टि रखो और जो मनुष्य धर्मसे विचलित होता दिखायी दे उसका अपने वाहुवलसे दमन करो।' वेनपुत्रने कहा, 'महानुभावो! ब्राह्मण तो मेरे लिये सर्वदा वन्दनीय हैं, उन्हें मैं दण्ड न दे सकूंगा।' मुनियोंने कहा, 'ठीक है।'

अब वेदनिधि भगवान् शुक्राचार्य उसके पुरोहित बने और वालखिल्योंने मन्त्रीका कार्य संभाला। यह वेनपुत्र पृथु विष्णुभगवान्से आठवीं पीढ़ीपर था। सुनते हैं पृथुके समय पृथ्वी बहुत ऊँची-नीची थी। उन्होंने ही पथर उलवाकर इसे समतल किया है। कहते हैं, भगवान् विष्णु, इन्द्र, देवगण, प्रजापति, ऋषि और ब्राह्मण—इन सबने मिलकर पृथुका अभिषेक किया था। स्वयं पृथ्वीदेवी भी रत्नोंकी भेंट लेकर उनकी सेवामें उपस्थित हुई थीं। समुद्र, हिमालय और इन्द्रने उन्हें अक्षय धन दिया था तथा यक्ष और राक्षसोंके स्वामी भगवान् कुबेरने भी बहुत धनराशि भेंट की थी।

युधिष्ठिर! राजा पृथुके संकल्प करते ही करोड़ों हाथी, रथ, घोड़े और पैदल प्रकट हो गये। उनके राज्यमें सुढ़ापा, दुष्काल, आधि-व्याधि तथा सर्प, चोर या आपसमें एक-दूसरेसे किसी प्रकारका भय नहीं था। जिस समय वे समुद्रमें हीकर चलते थे उसका जल स्थिर हो जाता था तथा पर्वत उन्हें रास्ता दे देते थे। उन्होंने इस पृथ्वीसे सतरह प्रकारके धान्य बुहे थे। महात्मा पृथुने इस लोकमें धर्मकी वृद्धि की थी और सारी प्रजाका रञ्जन किया था, इसलिये वह 'राजा' नामसे विख्यात हुआ। ब्राह्मणोंका शक्तिसे वाण करनेके कारण वह 'क्षत्रिय' हुआ तथा उसने धर्मानुसार भूमिको प्रथित (पालित) किया था, इसलिये इसका नाम 'पृथ्वी' पड़ गया। स्वयं भगवान् विष्णुने उनके विषयमें ऐसी मर्यादा कर दी थी कि 'राजन्! कोई भी पुरुष तुम्हारी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करेगा, तमसे नकार नहीं

होगा राजा पृथुके शरीरमें स्वयं भगवान् विष्णुका अवैद्य था, इसीसे मारा संगार उन्हें देवताकी तरह मानकर उनके सामने नम्रता था ।

राजन् ! इसलिये गुप्तचरोंके द्वारा प्रजाकी गति-विधिपर दृष्टि राखकर तुम्हें सज्जदा उसका दण्डनौतिके अनुसार पालन करना चाहिये । ऐसा न हो उसके साथ मिलकर कोई शत्रु तुम्हारा परमव्य भर दे । राजा यदि गुप्त कर्म करता है तो यह प्रजाके भलेके लिये ही होता है । उसके देवीगुणोंके निवा और ऐसा क्या कारण हो सकता है, जिनमे मारा देना एक व्यक्तिके अधीन रहे । राजा भी अन्य मनुष्योंके समान ही है, तो भी यह माया लोक उस एक्की ही आश्रममें बँधा रहता है । राजाके दण्डका बड़ा महत्त्व

है; उमोके कारण सारे राष्ट्रमें नीति और न्यायका आचरण होता है ।

युधिष्ठिर ! ब्रह्माजीके दत्त नीतिशास्त्रमे पुराणोंके आधिभांय, महर्षियोंकी उत्पत्ति, तीर्थोंके बँध, नाराजोंके बँध, चारों आश्रम, चार प्रकारके होत्रकर्म, चारों वर्ण, चार प्रकारकी रिवाज, इतिहास, वेद, न्याय, तप, ज्ञान, अहिंसा, सत्य और असत्य, युद्धजनकोंके सेवा, दान, शौच, सततगता और दया—इन सभी विषयोंका वर्णन है । अधिकांश ब्या, जो कुछ हम पृथ्वीपर है और जो हमके नीचे है, उस सभीका हम ब्रह्माजीके शास्त्रमे उल्लेख है ।

भरतप्रेष्ठ ! इस प्रकार राजाश्रीका जो कुछ महत्त्व है, वह सब मैंने तुम्हें मुना दिया । अब बताओ और क्या कहें ?

राजा युधिष्ठिरके प्रश्न करनेपर भोष्मजीका चारों वर्ण और चारों आश्रमोंके धर्म मुनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तब राजा युधिष्ठिरने विनामह भोष्मको प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर पूछा, 'विनामह ! चारों वर्ण, चारों आश्रम और राजाओंके कौन-कौन-से धर्म माने गये हैं । इनका अलग-अलग वर्णन कीजिये । ऐसे कौन कर्म हैं जिनमे राष्ट्रकी युद्ध होती है और जिन कर्मोंके करनेसे राजा, पुरुषात्मी तथा राजमेवकोंका अभ्युदय होता है । राजाको किस प्रकारके बोध, दण्ड, दुर्ग, सहायर्, मन्त्री, ऋत्विज, पुरोहित और आचार्योंको त्याग देना चाहिये । आपत्तिमान आनेपर किस प्रकारके लोगोमे विश्वास करना चाहिये और जिन लोगोमे अपने शरीरको पुरी-पूरी चौरमी रखनी चाहिये ?

भोष्मजी बोले—धर्मकी महिमा महान् है; अतः मैं धर्मको, धर्मके विधाना भगवान् वृष्णजी और उपस्थित ब्राह्मणोंको नमस्कार करके सनातन धर्मोंका वर्णन करता हूँ । अशोध, सत्यभाषण, धनको बाँटकर भोगना, क्षमा, अपनी स्त्रीमे सतान उत्पन्न करना, शौच, अद्रोह, सरलता और अपने पालनीय व्यक्तिवोंका पालन करना—ये ती धर्म सभी वर्णोंके लिये समान है । अब ब्राह्मणोंके धर्म बताता हूँ । इन्द्रियोंका दमन करना यह ब्राह्मणोंका पुरातन धर्म है । इसके सिवा स्वाध्यायका अभ्यास भी उनका प्रधान धर्म है; ब्योक्ति इसीमे उनके सब कर्मोंकी पूर्ति हो जाती है । यदि अपने धर्ममें स्थिर, शांत और ज्ञान-विज्ञानमे लूण ब्राह्मणकी किसी प्रकारके असाहकर्मका आश्रय लिये बिना ही धन प्राप्त हो जाय तो उसे दान या यज्ञमे लगा देना चाहिये । न्युतपोकी धन बाँटकर ही उसका उपयोग करना चाहिये—ऐसा

विद्वानोंका मन है । ब्राह्मण केवल स्वाध्यायमे ही इतहास्य हो जाता है; दूसरे कर्म वह करे अथवा न करे । दयाशी प्रधानता होनेके कारण वह सब जीवोंका मित्र कहा जाता है ।

राजन् ! अब क्षत्रियके धर्म मुनो । क्षत्रियको दान करना चाहिये, किन्तु माँगना नहीं चाहिये । इसी प्रकार यज्ञ करना चाहिये, किन्तु कराना नहीं चाहिये । यह वेदादिकता अध्ययन करे, किन्तु पढ़ाये नहीं, प्रजाका पालन करे तथा सुदंतीको मारनेमें चौकम रहकर रणभूमिमें पराश्रय दिगावे । जो राजा शास्त्रज्ञ और बड़े-बड़े धर्मोमे धनन करनेवाले हैं और जो युद्धमें विजय प्राप्त करते हैं, वे ही पुण्य लोकोंको प्राप्त होते हैं । जिस प्रकार दान, स्वाध्याय और यज्ञ राजाओंके कल्याणमे सहायक है, उसी प्रकार युद्ध भी उनके लिये निःश्रेयसका साधन है । अतः धर्मोपार्जनके लिये राजाको अत्यय युद्ध करना चाहिये । उसे अपनी सब प्रजाको अपने-अपने धर्ममें स्थित रखते हुए उससे सब प्रकारके धर्मकृत्य कराने चाहिये । राजा प्रजापालनसे ही इतहास्यता प्राप्त कर लेता है, दूसरा कोई कर्म वह करे अथवा न करे । जगमे बननी प्रधानता है, इसलिये वह प्रजाका इन्द्र कहा जाता है ।

इससे बाद मैं वैश्यका सनातन धर्म मुनाना हूँ । दान, अध्ययन, यज्ञ और पवित्र साधनोंमे धन संग्रह करना—ये उसके प्रधान कर्तव्य हैं । इसके सिवा, उसे साधुजनोंमे सब प्रकारके यज्ञोंका पालन करना चाहिये । यदि वह किसी शास्त्रविरुद्ध कर्मका आचरण करता है तो उसे 'विश्व' में

कहा जाता है। पशुओंका पालन करनेसे वैश्यकी बड़ा मुख मिलता है, इसलिये उसे ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिये कि मैं पशुपालन नहीं करूँगा।

अब तुम्हें शूद्रके धर्म बताता हूँ। ब्रह्माजीने शूद्रोंको तीन वर्णोंके दासत्वके लिये रचा है, इसलिये उन्हें उनकी सेवागुणोंमें लगे रहना चाहिये। उनकी सेवा करनेसे ही उन्हें बड़ेसे-बड़ा मुख मिल सकता है। शूद्रको धनसंचय कभी नहीं करना चाहिये; क्योंकि धन पाकर वह पापमें प्रवृत्त हो जाता है और अपनेसे बड़े ब्राह्मणोंको अपने अधीन रखने लगता है। उसे कोई धार्मिक कृत्य करना ही तो राजाकी आज्ञा पाकर बँसा कर सकता है। अब मैं उसकी वृत्तिका बर्णन करता हूँ, जिससे उसकी आजीविकाका निर्वाह हो सकता है। तीनों वर्णोंको शूद्रका भरण-भोषण बदर्य करना चाहिये। उसकी सेवाके बदले उसे काममें लगे हुए डाँते, चादर, जूते और पंखे देने चाहिये। जो फटे-पुराने वस्त्र अपने पहनने योग्य न रहें वे शूद्रको ही दे देने चाहिये; क्योंकि धर्मतः वे उसीकी सम्पत्ति हैं। सेवापरायण शूद्र जिस-किसी द्विजके पास जाय, उसीको उसकी आजीविकाका प्रदम्ब कर देना चाहिये—ऐसा धर्मन पुत्रोंका कहना है। शूद्रको भी अपने स्वामीका किसी प्रकारके आपत्ति-कालमें भी त्याग नहीं करना चाहिये। यदि स्वामी संतानहीन हो तो उसे ही पिण्डदान करना चाहिये और बूढ़ा या दुर्बल हो तो उसका भरण-भोषण भी करना चाहिये। इस कार्यमें धनका नाश हो तो भी उसे उत्साहसे स्वामीके भरण-भोषणमें ही लगे रहना चाहिये; क्योंकि वस्तुतः वह धन शूद्रका अपना नहीं माना जाता, उसपर तो उसके स्वामीका ही अधिकार होता है।

गास्त्रोंमें तीनों वर्णोंके लिये यज्ञका विधान किया गया है तथा शूद्रके लिये मन्त्रहीन यज्ञकी विधि है। स्वाहाकार, वषट्कार और मन्त्र—इनमें शूद्रका अधिकार नहीं है। अतः शूद्र श्रौत यज्ञोंको दोसा न लेकर केवल पाकयज्ञोंसे यज्ञ करे। इन पाकयज्ञोंकी वृत्तिका एक पूर्णपात्र कहाँ गयी है। तीन वर्ण जो यज्ञ करते हैं उनका फल शूद्रको भी मिलता है; क्योंकि श्रद्धामय ही सब यज्ञोंमें प्रधान है। यज्ञ करनेवालोंका भी परमदेव श्रद्धा ही है और ब्राह्मण शूद्रोंके परमदेव हैं। अतः अपनी श्रद्धाके बलसे शूद्र अपने स्वामी ब्राह्मणोंके

किये हुए यज्ञके फलका अधिकारी हो जाता है। शूद्रको ऋक्, साम और यजुर्वेदका अधिकार नहीं है, फिर भी उसका इष्टदेव प्रजापति है। इस प्रकार मानसिक यज्ञोंका अधिकार सभी वर्णोंको है। मनुष्य जो इन्द्रियोंको जीतकर प्रातःकाल और सायंकालमें श्रद्धापूर्वक हवन करता है, उसमें भी प्रधान कारण श्रद्धा ही है। जो श्रद्धासम्पन्न द्विज यज्ञोंको उनके विधि-विधानके सहित जानता है और जिसे आत्मज्ञानके विषयमें भी पूर्ण निश्चय है वही यज्ञानुष्ठानका सच्चा अधिकारी है। यदि कोई चोर, पापी या महापापी भी यज्ञके द्वारा भगवान्का यजन करनेके लिये उत्सुक हो तो उसे भी 'साधु' ही कहा जाता है। ऋषिगण भी ऐसे पुरुषोंका प्रशंसा करते हैं; अतः निश्चय यही होता है कि सब वर्णोंको सर्वदा जैसे बने वैसे यज्ञानुष्ठान करना चाहिये। तीनों लोकोंमें यज्ञके समान कोई धर्म नहीं है; इसलिये मनुष्यको ईर्ष्यारहित होकर अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक यथेच्छ यज्ञ-यागादि करने चाहिये।

युधिष्ठिर! अब तुम चारों आश्रमोंके नाम और कर्म चुनो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास—ये चार आश्रम हैं। इनमें गार्हस्थ्यकी महिमा विशेष है। ब्रह्मचर्यमें जटाधारण और उपनयन-संस्कारद्वारा द्विजत्व प्राप्त करके वेदाध्ययन करे, फिर गार्हस्थ्यमें अग्न्याधानादि कर्म करते हुए उनके द्वारा तीनों ऋणोंसे मुक्त होकर इन्द्रियोंका संयम कर स्त्रीके सहित अथवा उसे छोड़कर वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करे। इस आश्रममें भारुष्यक शास्त्रोंका अध्ययन कर वनवासियोंके धर्म सीखे और फिर ब्रह्मचर्यपूर्वक संन्यास लेकर इन्द्रिय-सम्बन्धी भोगोंसे विरक्त हो जाय। महाराज! भोक्तृकामी ब्राह्मणके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करनेके बाद ही संन्यासाश्रममें प्रवेश करनेका अधिकार कहा है।

संन्यासीको चाहिये कि मन और इन्द्रियोंका संयम करे, जहाँ सूर्यास्त हो वहाँ उठकर जाय, किसी वस्तुको इच्छा न करे, अपने लिये कोई कुटी न बनवावे और जो कुछ मिल जाय उसीसे निर्वाह कर ले। सब तरहकी कामनाओंका त्याग कर दे, सबके प्रति समान भाव रखे, भोगोंसे दूर रहे और हृदयमें किसी प्रकारका विकार न आने दे। इन सब धर्मोंके कारण यह आश्रम सान्नात्-क्षेमधाम अर्थात् कल्याणका स्थान है। इसमें पहुँचकर पुरुष अविनाशी परमात्माके साथ एको-भावको प्राप्त हो जाता है।

अब गृहस्थाश्रमके धर्म चुनाता हूँ। जो पुरुष वेदोंका अध्ययनकर सब प्रकारके कर्म करते हुए संतान उत्पन्न करके

१. पूर्णपात्रका परिमाण इस प्रकार है—आठ मुट्ठी अन्नको 'त्रिचिन्द्' कहते हैं, आठ त्रिचिन्द्का एक 'पुष्कल' होता है और चार पुष्कलका एक 'पूर्णपात्र' होता है। इस प्रकार दो सौ छत्तन मुट्ठीका एक पूर्णपात्र होता है।

इस आश्रमके मुनिजनोंचित कठोर धर्मोका पालन करता है यह भी इन्द्रियोंके भोगमें विरक्त हो जाता है। गृहस्थको चाहिये कि अपनी ही स्त्रीमें संतुष्ट रहे, श्वशुरकालमें स्त्री-समागम करे, शास्त्रज्ञोका पालन करे, शठता और कपटसे दूर रहे, परिमित आहार करे, देवताओंकी आराधनामें तत्पर रहे, दूसरोंके उपकारोंको याद रखे, सत्य और मनुष्य भाषण करे, दया और क्षमासे युक्त रहे, इन्द्रियोंका संयम करे, गुण एवं शास्त्रोंकी आत्मा माने, देवता और पितरोंकी तृप्तिके लिये हृद्य-कथ्य देता रहे, ब्राह्मणोंकी निरन्तर अन्नदान करे,

मत्सरसे दूर रहे, अन्य सब आश्रमोंका पोषण करे और सर्वदा यज्ञयागद्विमें लगा रहे।

ब्रह्मचारीको एकमात्र आचार्यकी ही सेवामें तत्पर रहना चाहिये, इन्द्रियोंको बाधमें रतकर अपने व्रतका पालन करना चाहिये, वेदोंका स्वाध्याय करते हुए नियमबोधका अनुष्ठान करना चाहिये, नित्यप्रति गुणज्ञोको प्रणाम करना चाहिये तथा स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और अतिविपुजन—इन छः कर्मोंका निष्कामभावसे आचरण करना चाहिये। ये ही सब ब्रह्मचर्याश्रमके धर्म हैं।

सर्वसाधारणके धर्म, राजधर्मकी महत्ता और उसके विषयमें इन्द्रवेषधारी भगवान् विष्णु और राजा माण्ड्याताके संवादका वर्णन

राजा युधिष्ठिरने कहा—पितामह! अब आप ऐसे धर्मोंका वर्णन कीजिये जो सब प्रकार कल्याणकारक, सुख-प्रद, परम पुण्यप्रद, हिंसाहीन और सब लोकोंमें माननीय हों तथा जिनका सुगमतासे पालन हो सके।

भीष्मजी बोले—भरतभेष्ट! उक्त चार आश्रम ब्राह्मणोंके लिये ही कहे गये हैं। अन्य तीन वर्ण उनका अनुवर्तन नहीं करते। उसी प्रकार जो ब्राह्मण क्षत्रिय, धर्म्य या शूद्रोंके धर्मोंका सेवन करता है, उस मन्दमतिको इस लोक और परलोकमें निन्दा होती है तथा भरनेपर वह नरकमें जाता है। जो ब्राह्मण छः कर्मोंमें तत्पर रहता है, चारों आश्रमोंमें उनके सब धर्मोंका आचरण करता है तथा तपस्वी, निरपेक्ष और उदार है, उसे असय लोक प्राप्त होते हैं। जो पुरुष जिस प्रकारका कर्म करता है, उससे उसमें वैसा ही गुण आ जाता है।

राजन्! धनुषको डोरी लोंबना, शत्रुको दबाना, खेती, व्यापार या पशुपालन करना अथवा धनके लिये दूसरोंकी सेवा करना—ये ब्राह्मणके लिये अत्यन्त अकर्म्य हैं। मनीषी ब्राह्मण यदि गृहस्थ हो तो उसके लिये यदुकर्म ही सेवन करने योग्य हैं और कृतकृत्य होनेपर उसके लिये वनमें रहना ही अच्छा माना गया है। ब्राह्मणको राजसेवा, खेतीके धन, व्यापारको आजीविका, कुटिलता, परस्त्रीगमन और ध्याज—इनसे सर्वदा दूर रहना चाहिये। जो ब्राह्मण बुद्धिचरित्र, धर्महीन, कुसटाका स्वामी, चालखोर, नाचनेवाला, राजसेवक अथवा कोई और विकर्म करनेवाला होता है, वह अत्यन्त अधम है, उसे तो शूद्र ही समझो और उसे शूद्रोंकी पंक्तिमें घिटाकर ही भोजन करना चाहिये। ऐसे ब्राह्मणोंको देवपूजन आदि कार्योंसे दूर रहना चाहिये। जो ब्राह्मण

मर्षावाञ्छ्य, अपवित्र, भ्रू-स्वभाववाला, रितामय और अपने धर्मको त्यागकर चलनेवाला हो, उसे हृद्य, कथ्य अथवा दूसरे दान देना न देनेके बराबर हीं है। ब्राह्मण तो उगीको समझना चाहिये जो जितेन्द्रिय, सोमपान करनेवाला, सदा-चारी, कृपालु, सहनशील, निरपेक्ष, सरल, मनु और क्षमावान् हो; इसके विपरीत जो पापपरायण है उसे क्या ब्राह्मण समझा जाय ?

राजन्! क्षत्रियको तो चाहिये कि पहले धर्मानुसार प्रजाका पालन करे, राजसूय, अरबमेघ तथा दूसरे यज्ञोका अनुष्ठान करे, शास्त्रकी आत्माके अनुसार ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे, संप्राममें विजय प्राप्त करे, फिर प्रजाकी रक्षाके लिये राज्यपर अपने पुत्रका अभियेक करे और यदि वह योग्य न हो तो किसी अन्य क्षत्रियकुमारको गोव लेकर राज्यका अधि-कारी बनावे। इस प्रकार पितृपुत्रोंके द्वारा पितरोंका तथा यज्ञानुष्ठान और वेदाध्ययनसे देवता और ऋषियोंका अच्छी तरह पूजन कर जो क्षत्रिय अन्त समयपर अन्य आश्रममें प्रवेश करना चाहे वह क्रमशः उन्हें स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गृहस्थधर्मोंका रक्षण कर देनेपर भी क्षत्रियको संन्यासधर्मका पालन करते हुए जीवनरक्षाके लिये ही भिक्षाका आश्रय लेना चाहिये, अपनी सेवा करानेके लिये ऐसा करना ठीक नहीं है। ब्राह्मणके सिवा अन्य तीन वर्णोंके लिये चारों आश्रमोंके धर्मोंका पालन करना अनिवार्य नहीं है। क्षत्रियके लिये तो राजधर्मकी ही प्रधानता है। यों भी राजका धर्म सब धर्मोंमें प्रधान है। इतोंके द्वारा सब वर्णोंका पालन होता है। राजधर्मोंमें सब प्रकारके कार्योंका समावेश हो जाता है और दान

पुरातन धर्म कहा जाता है। यदि राजदण्ड न रहे तो वेदत्रयी-का नाश हो जाय और उसके नष्ट होनेपर तो सारे धर्मोंका ही लोप हो जाय। इस प्रकार पुरातन राजधर्मको त्याग देनेसे सभी आश्रमोंके धर्मोंको ठेस पहुँच सकती है। राजधर्ममें सभी प्रकारकी दीक्षाओंका समावेश है और सारी विद्याएँ तथा समस्त लोक भी राजधर्मके ही अधीन हैं; इसलिये क्षत्रियके लिये तो राजधर्म ही सबसे श्रेष्ठ है।

युधिष्ठिर ! यह बात में पहले ही कह चुका हूँ कि ब्राह्मणोंके ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास—इन तीनों आश्रमोंके धर्मोंका गृहस्थके धर्ममें अन्तर्भाव हो जाता है तथा क्षत्रियके धर्म तीनों वर्णोंके आश्रय हैं; क्योंकि समस्त लोक और पुण्यकर्मोंका आधार राजधर्म ही है। इस विषयमें मैं धर्म और अर्थका निर्णय करनेवाला एक इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन समयमें मान्धाता नामका एक राजा था। उसने आदि-अन्तशून्य भगवान् नारायणका दर्शन पानेकी इच्छासे एक यज्ञ किया। उसने भगवान्के चरणोंमें सिर रखकर दर्शनोंके लिये प्रार्थना की। तब उन्होंने इन्द्रका रूप धारण कर राजाको दर्शन दिया। मान्धाताने वहाँ बैठे हुए अन्य राजा और सभासदोंके सहित इन्द्ररूपधारी भगवान् विष्णुका पूजन किया। फिर उन दोनोंका आपसमें इस प्रकार संवाद हुआ—



इन्द्रने कहा—राजन् ! तुम सभी मनुष्योंके राजा

हो, इसलिये तुम्हारे मनमें जो-जो कामनाएँ हैं उन सबको मैं पूरी करूँगा। तुम सत्यवादी, धर्मपरायण, जितेन्द्रिय और शूरवीर हो। तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और सुदृढ़ श्रद्धाके कारण देवताओंकी तुमपर बड़ी प्रीति है; इसलिये तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर देनेके लिये मैं तैयार हूँ।

मान्धाताने कहा—भगवन् ! मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न करके आदिदेव भगवान् विष्णुके दर्शन करना चाहता हूँ। अब मेरी इच्छा सब प्रकारके भोगोंको त्याग कर वनमें जानेकी है; क्योंकि लोकमें सभी सत्पुरुष अन्तमें इसी मार्गका अनुसरण करते हैं; मैंने क्षात्र-धर्मके द्वारा मिलनेवाले पुण्यलोकोंको तो प्राप्त कर लिया है और संसारमें अपनी कीर्ति भी स्थापित कर दी है, किंतु जो धर्म आदिदेव श्रीविष्णुभगवान्से प्रवृत्त हुआ है, उसका आचरण करना मैं नहीं जानता।

इन्द्रने कहा—आदिदेव भगवान् विष्णुसे तो पहले राजधर्म ही प्रवृत्त हुआ है, दूसरे धर्म तो उसीके अङ्ग हैं और उसके बाद ही प्रकट हुए हैं। सब धर्मोंका अन्तर्भाव क्षात्र-धर्ममें ही हो जाता है, इसलिये इसीको सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान्ने क्षात्रधर्मके द्वारा ही शत्रुओंका दमन करके देवता और ऋषियोंकी रक्षा की थी। यदि वे असुरोंसे आक्रान्त इस पृथ्वीको न जीतते तो ब्राह्मणोंका नाश हो जानेसे चारों वर्ण और चारों आश्रमोंके सभी धर्मोंका नाश हो जाता। इन सनातन धर्मोंका सैकड़ों बार नाश हो चुका है; किंतु क्षात्रधर्मने इन्हें पुनः उज्जीवित कर दिया है। युग-युगमें इसीके कारण सनातन धर्मोंका उद्धार हुआ है, इसलिये मनुष्योंमें इसी धर्मको सबसे अच्छा माना जाता है। युद्धमें शरीरकी अर्हुति देना, समस्त प्राणियोंपर दया करना, लोक-व्यवहारका ज्ञान प्राप्त करना, भयभीत प्रजाकी रक्षा करना और दुखी लोगोंको दुःखसे छुड़ाना—ये सब बातें राजाओंके क्षात्रधर्ममें ही पायी जाती हैं। जो लोग काम-क्रोधमें फँसे हुए हैं और मर्यादामें नहीं रहना चाहते, वे राजाके डरसे ही पाप नहीं कर पाते तथा जो सब प्रकारके धर्मोंका पालन करनेवाले शिष्ट पुरुष हैं, वे सदाचारका सेवन करते हुए सद्धर्मका उपदेश कर सकते हैं। राजा अपनी प्रजाका पुत्रोंकी तरह पालन करता है, अतः इसमें संदेह नहीं, उसकी देख-रेखमें सब प्राणी लोकमें निर्भय होकर विचरते हैं। इस प्रकार संसारमें क्षात्रधर्म ही सबसे श्रेष्ठ, सनातन, नित्य, अविनाशी और सब जीवोंका उपकार करनेवाला है; इसका पर्यवसान मोक्षमें ही होता है।

राजन् ! तुम-जैसे लोकहितैषी पुरुषोंको इस क्षात्र-धर्मका ही पालन करना चाहिये। यदि इसका पालन

न किया जायगा तो प्रजा नष्ट हो जायगी। जो राजा सब प्राणिपोंपर दशादृष्टि रखता है, उसे इसीको अपना प्रधान धर्म समझना चाहिये। यह पृथ्वीका संस्कार करावे, राजसूय-अश्वमेधादि यज्ञोंमें अवसूय-स्तन करे, भिक्षाका आश्रय न ले, प्रजाका पालन करे और संश्राममें शरीरत्याग करे। 'मित्र उपायों, नियमों और पुण्ययोगोंके द्वारा चानु-संध्यको स्थापित करने और उसे सुरक्षित रखनेके कारण शास्त्रधर्मको ही श्रेष्ठ कहा जाता है और इसीमें सारे धर्म समाये हुए हैं। यज्ञ-यागादि कराना तथा पहले जो चारों आश्रम कहे गये हैं, उनके धर्मोंका पालन करना ब्राह्मणोंका कर्तव्य है। ब्राह्मणोंका प्रधान धर्म यही है। जो विप्र इसका पालन न करे, उसे शूद्रके समान नस्त्रसे मार डालना चाहिये। जो ब्राह्मण अधर्ममें प्रवृत्त है वह सम्मानका पाव नहीं हो सकता, उसका किमोको विश्वास भी नहीं करना चाहिये।

मान्धाताने कहा—देवराज ! मेरे राज्यमें जो धवन, किरात, गांधार, चीन, शबर, बर्बर, गज, तुषार, कड्ड, पट्टक, आंग्र, मद्र, पीगु, पुनिन्द, रमठ और काम्योज आदि जातियोंके लोग रहते हैं तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंकी मतान हैं, उन्हें अपने-अपने धर्मोंका किन प्रकार पालन करना चाहिये ? इनके मित्र, जो लोग लूट-याट करके अपनी जीविका चलाते हैं; उन सबके साथ मेरा क्या व्यवहार होना चाहिये ?

इन्द्रने कहा—राजन् ! जो लोग लूट-याट करके ही अपना निर्वाह करते हैं, उनमें अपने माता-पिता, आचार्य, गुरु, आश्रमवासी और राजाओंको सेवा करानी चाहिये, वेदोक्त धर्म-कर्म और विन्धुधाड्य करने चाहिये, कुण्डे, पीसले और आश्रम बनाने चाहिये तथा यथासमय ब्राह्मणोंको दान दिवनाते रहना चाहिये। अहिंसा, सत्य, अन्नोद्य, शौच, अद्रोह, यज्ञ-यागादि करवाने ब्राह्मणोंको दक्षिणा दिलानी

चाहिये और बड़े-बड़े ब्रह्मनीज करवाने चाहिये। राजन् ! प्रजापति ब्रह्माने इसी प्रकार सब मनुष्योंके कर्तव्य पहले ही निश्चित कर दिये हैं। उनका उन्हें यथावत् पालन करना चाहिये।

मान्धाताने कहा—देवराज ! मानवममात्रमें इन्द्र तो सभी वर्ण और सभी आश्रमोंमें पाये जाते हैं। ये केवल मित्र-मित्र विद्वांसोंमें छिपे रहते हैं।

इन्द्र बोले—राजन् ! जब दण्डनीति नष्ट हो जाती है और राजधर्मको उपेक्षा होने लगती है तो सभी प्राणी कर्तव्य-विमूढ़ हो जाते हैं। इस सत्ययुगकी समाप्ति होनेपर अनेकों वेपथारो संन्यासी प्रवृत्त हो जायेंगे और सब आश्रमोंमें फेर-कार हो जायगा। लोगोंमें काम और श्रेयशकी प्रवृत्तता होगी, इसलिये वे पुराण और धर्मोंकी परमगतिपर ध्यान न देकर उन्मत्त रास्तेसे चलने लगेंगे। जब उदारहृदय राजातोंग दण्डनीतिके द्वारा पापीको पाप करनेसे रोकने रहते हैं तो परममङ्गलमय सनातन धर्मका हान नही होता। राजा सभी लोकोंके सम्मानका पाव है। जो पुरुष उसका अपमान करता है, उसके दान, यज्ञ और धाड्य कभी सफल नहीं होते। राजा मनुष्योका अधिपति, सनातन देवस्वरूप और धर्मकी रक्षा करनेवाला होता है; जो पुरुष अपनी बुद्धिमें प्रवृत्तिधर्मकी गतिका विचार करता है, मैं तो उसीको मानवीय और पूज्य समझता हूँ। उसीमें शास्त्रधर्म भी स्थित होता है।

भीष्मजी कहते हैं—सृष्टिर्दर ! मान्धाताको इस प्रकार उपदेश देकर इन्द्रहृदयारो भगवान् विष्णु अपने सनातन और अविनाशी धामको चले गये। इस तरह पहले भगवान् विष्णुने ही राजधर्मको प्रवर्धित किया था और अच्छे-अच्छे सत्युप इसका आचरण करते रहे हैं। अतः तुम भी अपने पूर्वपुरुषोंद्वारा स्वीकृत इस शास्त्रधर्मका ही आचरण करो।

राजधर्ममें चारों आश्रमोंके धर्मोंका समावेश

राजा सृष्टिर्दरने कहा—पितामह ! अपने मनुष्योंके चार आश्रम बनाये हैं, भी अब आप विस्तारसे उनका वर्णन कीजिये।

भीष्मजी बोले—सृष्टिर्दर ! मैं तो सनातन धर्मोंका जन्म ज्ञान मुझे है वंसा तुमको भी है ही, तथापि तुम मुझमें पृच्छते हो तो मुझे। सदाचारमें प्रवृत्त होकर चारों आश्रमोंके धर्मोंका पालन करनेवाले लोगोंको जिन फलोंकी प्राप्ति होती है, वे ही राग-द्वेष छोड़कर दण्डनीतिके अनुसार व्यवहार करने-

वाले राजाको भी प्राप्त होते हैं। यदि राजा सब प्राणिपोंपर समान दृष्टि रखनेवाला हो तो उसे संन्यासियोंको प्राप्त होनेवाली गति मिलती है। जो राजा आश्रमतरङ्गको जानना है और जिसे दया और निन्दुरतके यथोचित प्रयोगका भी पता है, उसे गृहस्थाश्रमियोंको प्राप्त होनेवाले शौचोंकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सम्मानवीय पुरुषोंको उनकी अभीष्ट वस्तुएं देकर सम्मानित करना है, उसे यज्ञाचारियोंकी प्राप्त होनेवाली गति मिलती है और

सजातीय, सम्बन्धी और सुहृदोंका विपत्तिसे उद्धार करता है, उसे वानप्रस्थ्योंको प्राप्त होनेवाले लोक प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्रधान-प्रधान पुरुषों और आश्रमियोंका सत्कार करता है, नित्यप्रति पितृश्राद्ध, भूतयज्ञ, अतिथिसेवा और देवपूजन करता रहता है तथा जो सत्पुरुषोंके सत्कारके लिये शत्रुओंके राष्ट्रोंका दलन करता है, उस राजाको वानप्रस्थ्योंके लोकोंकी प्राप्ति होती है। समस्त प्राणियोंका तथा अपने राष्ट्रका पालन, नित्यप्रति वेदोंका अध्ययन, क्षमा, आचार्यका पूजन और गृहसेवा—ये ब्रह्मलोककी प्राप्तिके साधन हैं। युद्धमें प्राणोंकी बाजीका अवसर आनेपर जिस राजाका ऐसा निश्चय रहता है कि 'या तो मर जाऊँगा या देशकी रक्षा करके रहूँगा' उसे भी ब्रह्मलोकही प्राप्त होता है। जो राजा सब प्राणियोंके प्रति निष्कपट और सरल व्यवहार करता है वह भी संन्यासियोंका लोक ही प्राप्त करता है। जो राजा वानप्रस्थ और वेदव्रतकी ज्ञाता ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन देता है, उसे वानप्रस्थ्योंको प्राप्त होनेवाले लोक मिलते हैं। जो बालक, वृद्ध और समस्त प्राणियोंके प्रति दया करता है, उस राजाको सभी प्रकारके पुण्यलोक प्राप्त हो सकते हैं।

यदि कोई अत्याचारसे घबराकर अपनी शरणमें आवे तो उसकी रक्षा करनेवाले राजाको गृहस्थाश्रमीके लोकोंकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सब प्रकार चराचर प्राणियोंकी रक्षा और पूजा करता है तथा जो पूजनीय और आत्मज्ञ सत्पुरुषोंका पालन करता है, उसे भी गृहस्थोंको मिलनेवाले पुण्यलोक ही मिलते हैं। जो पुरुष विधाताके रचे हुए धर्ममें यथार्थ रीतिसे स्थित है, वह सभी आश्रमोंके प्राप्त होनेवाले पुण्य-फलको पा लेता है। मनुष्यको सभी आश्रमोंमें

रहते हुए स्थान, कुल और आयुका मान रखना चाहिये। जो बहुत सम्पत्ति और उपहारोंके द्वारा प्राणियोंका सत्कार करता है तथा सभी अवस्थाओंमें धर्महीपर दृष्टि रखता है, वह राजा सभी आश्रमोंका फल प्राप्त कर लेता है। जिस राजाके राज्यमें सुरक्षित रहकर धर्मकुशल पुरुष अपने धर्मका आचरण करते हैं, उसे उनके पुण्यका अंश प्राप्त होता है। जो राजा धर्मनिष्ठ पुरुषोंकी रक्षा नहीं करते, उन्हें उन पुरुषोंके पापका ही भागी होना पड़ता है। जो लोग धार्मिक पुरुषोंकी रक्षा करनेमें राजाकी सहायता करते हैं, उन्हें दूसरोंके धर्मका अंश मिलता है। युधिष्ठिर ! यह बात सर्वथा स्पष्ट है कि हमलोग जिसमें स्थित हैं, वह गृहस्थाश्रम अन्य सभी आश्रमोंसे श्रेष्ठ है। जो पुरुष दण्ड और क्रोधको त्याग कर समस्त प्राणियोंको अपने ही समान समझता है, वह इस लोकमें और मरनेके बाद परलोकमें सुख पाता है। जब जीवके हृदयमें संसारके किसी भी भोगके प्रति आसक्ति नहीं रहती तो वह सत्त्वमें स्थित हो जाता है और इसी समय उसे परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

राजन् ! तुम वेदाध्ययनमें लगे हुए सत्कर्मपरायण ब्राह्मणोंकी तथा अन्य सब लोगोंकी रक्षाका प्रयत्न करो। देखो, वनमें और विभिन्न आश्रमोंमें रहकर लोग जितना धर्म करते हैं, उनकी रक्षा करनेसे राजाको उससे सौगुना पुण्य होता है। मैंने तुम्हें यह कई प्रकारका राजधर्म सुनाया है। यह अत्यन्त प्राचीन और सनातन है, तुम इसीका अनुष्ठान करो। यदि तुम प्रजाके पालनमें तत्पर रहोगे तो चारों आश्रम और चारों वर्णोंके धर्माचरणका फल प्राप्त कर लोगे।

प्रजाके अभ्युदयके लिये राजाकी आवश्यकताका निरूपण तथा इस विषयमें बृहस्पति और राजा वसुमनाके संवादका उल्लेख

राजा युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! आपने चारों आश्रम और चारों वर्णोंके धर्म कहे। अब आप मुझे राष्ट्रका प्रधान कर्तव्य सुनाइये।

भीष्मजी बोले—राजाका अभिषेक करना यह राष्ट्रका प्रधान कर्तव्य है; क्योंकि स्वामी और सेनासे शून्य राज्यको सुदरे नष्ट कर देते हैं। जिस देशमें कोई राजा नहीं होता उसमें धर्मकी भी स्थिति नहीं रहती। वहाँ लोग आपसमें एक-दूसरेको खाने लगते हैं। ऐसी राजहीन स्थितिको धिक्कार है। अराजक देशमें रहना मैं किसीके लिये अच्छा

नहीं समझता। यदि उसपर कोई राज्यलोलुप प्रबल शत्रु आक्रमण कर दे, तो यही अच्छा है कि आगे बढ़कर उसका स्वागत किया जाय; क्योंकि लोकमें अराजकतासे बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। अतः जिन्हें उन्नतिकी इच्छा हो उन्हें सर्वदा अपने देशपर कोई राजा बनाये रखना चाहिये। जिस देशमें कोई राजा नहीं होता वहाँके लोग धन या स्त्रीका भी सुख नहीं भोग सकते। ऐसी स्थितिमें पापियोंको भी चैन नहीं मिलता; क्योंकि एक पुरुषका धन दो छिन लेते हैं तो दूसरे अनेकों मिलकर उन दोनोंका सर्वस्व लूट लेते हैं।

वही जो दास नहीं होता उसे भी दास बना लिया जाता है, निचियोंको बलात्कारसे छीन लिया जाता है। इसीसे देवताओंके प्रजाकर पालन करनेवाले राजाको सृष्टि की है। यदि पृथ्वीमें कोई दण्डधारी राजा न हो तो जलमें मछलियोंके समान बलवान् सोग दुबलोंको निगल जायें।

सुमते हैं कि राजासे हीन होनेके कारण पूर्वकालमें बहुतसी प्रजा नष्ट हो गयी थी। तब वह दुःखित होकर ब्रह्माजीके पास गयी और जनते कहने लगी, 'भगवन् ! राजाके बिना तो हमलोग नष्ट हो जायेंगे, आय हमें कोई राजा दीजिये।' तब ब्रह्माजीने मनुको आज्ञा दी, किन्तु



ब्रह्माजीकी यह आज्ञा पाकर मनु महाराज बड़े भारी सेना लेकर विजयके लिये निकले। उनकी महत्ताको देखकर सभी लोग डर रह गये और धर्म-धर्ममें मन लगाने लगे। इस प्रकार मनुजीने सर्वत्र धूम-धूमकर पर्यियोंका इमल किया और प्रजाको अपने कर्माँमें निपुत्र कर दिया। अतः जिस मनुष्यको ऐश्वर्यकी इच्छा हो उसे सबसे पहले प्रजापर अनुग्रह करनेके लिये कोई राजा निपुत्र करना चाहिये और उसे नित्यप्रति बड़ी भक्तिसे समस्कार करना चाहिये। इस लोकमें जिसका अपने सोग आदर करते हैं उसे दूसरे सोग भी मानते हैं और जिसका स्वजनोंके द्वारा तिरस्कार होता है वह दूसरोंकी बुद्धिमें भी गिर जाता है। राजाका दूसरोंके द्वारा तिरस्कार होना सभीके लिये दुःखदायी है, इसलिये प्रजाको चाहिये कि उसे छत्र, चक्र, आभूषण, अन्न, पान, भवन, आसन और शय्या आदि सभी प्रकारकी सामग्री मँट करे। इस प्रकार वैभव पाकर वह बुद्धि हो जाता है और उसमें प्रजाको रक्षा करनेकी शक्ति आ जाती है।

राजा युधिष्ठिरने पूछा—राजाजी ! ब्राह्मणलोग राजाको देवहय क्यों बताते हैं ? कृपा करके मुझे इसका रहस्य सुनाइये।

भीष्मजी बोले—युधिष्ठिर ! यही बात राजा वसुमनाने बृहस्पतिजीसे पूछी थी। तब बृहस्पतिजीने उससे कहा, "राजन् ! लोकमें जो धर्म बेला जाता है, उसका मूल कारण राजा ही है। राजासे इनके कारण ही प्रजा आपसमें एक-दूसरेको नहीं खाती। जब प्रजा मर्यादाकी छोड़ने लगती है और लोभके बशीमूल हो जाती है तो राजा ही धर्मके द्वारा उसमें शान्ति स्थापित करता है। यदि राजा न हो तो पोरुं जलमें रहनेवाली मछलियों और वनमें रहनेवाले पक्षियोंके समान प्रजा भी आपसमें सड़-सगड़कर बाल-की-बालमें जट्ट हो जायें। तब तो बलवान् सोग निर्दोषोंको बहू-बेटियोंको छीन लें और यदि वे सोधे-सोधे न दें तो उनके प्राणोंके प्राहक बन जायें। मनुष्योंके पास जो माहन, वस्त्र, असंकार और तरहू-तरहूके रत्न हों, उन्हें पापीलोग मूट लें। यदि राजा रक्षा न करे तो घरमालाओंके तरहू-तरहूका शास्त्राघात सहना पड़े, अधर्मका ही प्रचार होने लगे, पापीलोग भंडा, पिता, बूढ़, आचार्य, अतिथि और पुत्रोंको भी दुःख देने लगे; धनदातोंको मौत और बन्धनका बंधा भोगना पड़े; कोई भी मनुष्य किसी वस्तुपर अपना स्वाद न मान सके; सोग अकालमें ही बालके गालमें जाने लगे; देशमें दस्युओंको ही प्रधानता हो जाय; सौते नष्ट हो जाय; व्यापार मिट्टीमें मिसल जाय; नीति और कर्मकायका

मनुने राज्यका भार सेना स्वीकार नहीं किया। वे कहने लगे, 'मैं पापसे बहुत डरता हूँ, राज्य करना बड़ा कठिन काम है। विगीपतः मनुष्योंमें तो यह और भी कठिन हो जाता है; क्योंकि उनका आचरण सर्वदा अत्यपूर्ण होता है।' तब ब्रह्माजी बोले, 'सुम इस बातसे मत डरो, पाप तो करनेवालेको ही लपेगा। सुम यदि बलवान् और प्रतापी राजा होगे, कोई भी तुम्हें दबा न सकेगा और तुम्हारे कारण हम सभीको सुख प्राप्त होगा। सुमसे सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करेगी उसका अनुपूर्णा तुम्हें मिलेगा। उस धर्मके प्रभावसे सुम हमारा भी पोषण कर सकेगा। अब सुम विजयके लिये निकलो और शत्रुओंका मानमर्दन करो, तुम्हें सर्वदा विजय प्राप्त हो।'।

लोप हो जाय; बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ देखनेको भी न मिलें और न विवाह या समाजका ही कोई संगठन रहे। यदि राजा प्रजाका पालन न करे तो सारे संसारमें त्रास फैल जाय, सबके हृदय डारवाडोल हो जायें, सब ओर हाहाकार मच जाय और एक क्षणमें ही इस सारे संसारका नाश हो जाय; फिर तो ब्रह्महत्या करनेवाला भी मौजसे इन्द्रियोंका सुख भोगता रहे, चोर हाथों-हाथ प्रजाकी चीजें उड़ा ले जायें, धर्मकी सारी मर्यादा टूट जाय, लोग भयभीत होकर द्रुपद-उदर भागने लगें, जगत्में अन्याय फैल जाय, प्रजा वर्णसंकर हो जाय और देशमें दुर्मिक्ष पड़ने लगे। राजासे सुरक्षित रहनेपर ही लोग निर्भय होकर घरका बरबाजा खुना छोड़ देते हैं और सुखकी नींव सोते हैं। यदि धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वीकी रक्षा न करते तो लोगोंको बूसरोंके मुंहसे कोई कड़वी बात सुनना भी सम्भव न होता, किसीकी मार सहनेकी तो बात ही क्या है? यदि राजाकी देव-देव्य रहती है तो दिव्या रास्तेमें सब प्रकारके आमूषणोंसे विभूषित होकर बिना किसी पुण्यको साथ लिये बेलखके चली जाती हैं, लोग धर्मका ही आचरण करते हैं, आपसमें किसीको कष्ट नहीं पहुँचाते, तीनों वर्ण तरह-तरहके यज्ञोंका अनुष्ठान करते हैं और ध्यान देकर विद्याभ्यास करते हैं। इस जगत्का पोषण खेती-बारी और व्यापारसे ही होता है और इसका आधार यज्ञ-यागादि हैं; ये सब भी तभी ठीक-ठीक निभते हैं, जब राजा धर्मकी रक्षा करता है।

“राजाके न रहनेपर सब प्रकारसे प्राणियोंका भी नाश होने लगता है, उसके रहनेपर ही सबकी रक्षा होती है। ऐसी स्थितिमें भला राजाका सम्मान कौन न करेगा? जो पुरुष राजाका प्रिय और हित करता है, उसके इहलोक और परलोक दोनों ही बन जाते हैं और जो मनसे भी राजाका अहित चाहता है, उसे यहाँ भी कष्ट होता है और मरनेपर भी नरकका द्वार खोलना पड़ता है। ‘यह मनुष्य है’ ऐसा तमभाकर राजाका कभी अपमान नहीं करना चाहिये। यास्तवमें तो यह मनुष्यरूपमें कोई महान् देवता ही विराजमान है। राजा समय-समयपर अग्नि, सूर्य, मृत्यु, कुबेर और यम-दान पाँच देवताओंका रूप धारण करता है। जिस समय वह छत्रध्वज धारण करके प्रजाको कष्ट पहुँचानेवाले कुण्ड पुरुषोंको अपने उप तेजसे दग्ध करता है, उस समय अग्निरूप हो जाता है; जब वह गुप्तरूपी नेत्रोंके द्वारा सब प्रजाकी प्रवृत्तियों देखता है और उसके कल्याणका प्रयत्न करता है तो सूर्य हो जाता है; जब वह क्रोधमें भरकर संकड़ों पापी पुरुषोंको उनके पुत्र-पौत्र और सलाहकारोंके सहित मारने

लगता है तो वह मृत्युके समान हो जाता है। जब कठोर वण्ड देकर अधर्मियोंका दमन करता है और धर्मात्माओंके प्रति दयाभाव प्रदर्शित करता है, उस समय साक्षात् यमराज ही जान पड़ता है और जिस समय वह उपकारियोंको धन और स्त्री आदि देकर संतुष्ट करता है तथा अपकार करने-वालोंके तरह-तरहके रत्न छीनने लगता है तो स्वयं कुबेरके समान जान पड़ता है। जो पुरुष कार्यकुशल, पुण्यकर्मा और ईर्ष्याशून्य हो तथा जो धर्मकी वृद्धि चाहता हो उसे राजाकी निन्दा कभी नहीं करनी चाहिये। राजाके विरुद्ध चलकर कोई भी सुख नहीं पा सकता, भले ही वह राजाका पुत्र, भाई, समकक्षक अथवा समकक्ष ही क्यों न हो। वायुसे प्रज्वलित हुई आग भी कदाचित् कोई वस्तु भस्म किये बिना छोड़ दे, परंतु राजासे सामना पड़ जानेपर कुछ भी बाकी नहीं बच सकता। राजाकी वस्तुओंसे तो मौतके समान दूर रहना चाहिये। मृग जैसे मारकायन्त्रको छूते ही मर जाता है, उसी प्रकार राजद्रव्यका स्पर्श करते ही मनुष्यके प्राण संकटमें पड़ जाते हैं; इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको राजाकी वस्तुकी अपनी ही चीजकी तरह रक्षा करनी चाहिये।

“अतः जो पुरुष उन्नति चाहता हो, संयमी हो, जितेन्द्रिय हो, मेधावी हो, विचारशक्ति रखता हो और चतुर हो उसे सर्वदा राजाके ही पक्षमें रहना चाहिये। राजाको भी ऐसे मन्त्रीका अवश्य सत्कार करना चाहिये जो कृतज्ञ, बुद्धिमान्, उदारशाय, सुदृढ़ भक्ति रखनेवाला, जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ और सर्वदा नीतिका अनुसरण करनेवाला हो। जो अपने प्रति वृद्ध अनुराग रखता हो, बुद्धिमान् हो, धर्मज्ञ हो, संयतेन्द्रिय, शूरवीर और उदार हो तथा और सबको रोककर अकेला आप ही सब काम करनेको तैयार हो ऐसा पुरुष राजाको अवश्य अपने पास रखना चाहिये। जिस प्रकार बुद्धि मनुष्यको निःसंकोच कर देती है, उसी प्रकार राजा उसे विनयी बना सकता है। जो राजासे विरुद्ध है, उसे सुख कैसे मिल सकता है, राजा तो अपने शरणापन्नको ही सुखी करता है। राजा प्रजाका गौरवपूर्ण हृदय है तथा वही उसकी गति, प्रतिष्ठा और प्रधान सुख है। जो लोग उसका आश्रय लेते हैं वे पुरी तरहसे इहलोक और परलोकको अपने अधीन कर लेते हैं। राजा भी दमन, सत्य और सौहार्दसे पृथ्वीका शासन करता है तथा बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान करके सनातन स्वर्गस्थान प्राप्त कर लेता है।” वृहस्पतिजीके इस प्रकार उपदेश देनेपर फोसलराज वसुमना प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रजाका पालन करने लगे।

राजाके प्रधान कर्तव्योंका तथा युगनिर्माणमें दण्डनीतिकी प्रधानताका वर्णन

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! राजाना प्रधान कर्तव्य क्या है ? उसे देखके रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? शत्रुओंको किस प्रकार जीतना चाहिये ? दूतोंकी नियुक्ति किस क्रममें करनी चाहिये तथा चारों वर्ण और जपने सोचकर, स्त्री एवं पुत्रोंको किस प्रकार अपना विरवास दिताना चाहिये ?

भीष्मजी बोले—राजन् ! तुम सावधान होकर राजाके आवरणके विषयमें सुनो । राजा तथा उसके प्रतिनिधियोंके आचरणमें क्या करना चाहिये ? सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ । राजाको पहले तो अपने मनको जीतना चाहिये, उसके बाद शत्रुओंको भी परास्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये । पाँचो इन्द्रियोंको काबूमें रखना यही मनका विजय है । जो राजा जितेंद्रिय है वही शत्रुओंका भी दमन कर सकता है । उसे किलोमें, राज्यकी सीमापर तथा नगर और गाँवके धर्मोद्योगमें सेना नियुक्त करनी चाहिये । इसी प्रकार सभी पड़ावोंपर, गाँव और नगरोंके भीतर तथा मत्स्यके आस-पास भी योद्धी-बहुत कुमुक रखना बहुत जरूरी है । जिन लोगोंको अच्छी तरह परीक्षा कर लो हो और जो देवनेमें मूर्ख, अंध और बहरे-से जान पड़ते हो तथा भूल-प्यास और परिश्रम सहनेकी सामर्थ्य रखते हों, उन्हें गुप्तचर बनाना चाहिये । इन गुप्तचरोंको मन्त्री, मित्र और पुत्रोंके ऊपर भी नियुक्त करना चाहिये । इसी प्रकार नगर, देश और सामन्तोंके राज्यमें भी इन्हें ऐसी युक्तियुक्त नियुक्त करे, जिससे वे आपसमें भी एक-दूसरेको न पहचान सकें । अपने गुप्तचरोंके द्वारा राजाको बाजारों, विहारों, समाजों, सन्यासियों, बगोचों, पण्डितोंकी सभाओं, प्राणियों, चौराहों, रामास्थानों और धर्ममालाओंमें रहनेवाले शत्रुके गुप्तचरोंका पता लगाने रहना चाहिये । यदि राजा शत्रुके दूतोंका पहले ही पता लगा लेता है तो इससे उसका बड़ा हित होता है ।

यदि राजानो अपना पक्ष निर्वल जान पड़े तो वह अपनी कमजोरीका पता लगनेसे पहले ही शत्रुके साथ मिथ कर ले । यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखायी दे तो संधि करनेमें देरी न करे । जो राजा गुणज्ञान, उत्साही, धर्मज्ञ और सदाचारी हो उनके साथ प्रजाका धर्मनुसार पालन करनेवाले नृपतिको अवश्य मेत कर लेना चाहिये । यदि राजाको अपनी स्थिति संतुष्टपूर्ण दिखायी दे तो जिन अपराधियोंको पहले छोड़ दिया हो और जिनसे जनता द्वेष मानती हो, उन लोगोंको सर्वथा मत्त कर दे तथा जिससे किसी भी प्रकारके उपहार

या अपहारकी सम्भावना न हो और जो स्वयं भी तिर उठानेकी सामर्थ्य न रखता हो उस पुरस्चको उपेक्षा करे । जिस राजामें शत्रुको दबानेकी सामर्थ्य हो और जिसकी सेना मजबूत हो वह अपनी राजधानीके प्रबन्धको ध्यवस्था करके जिम समय शत्रु दूतरेके साथ युद्धमें संलग्न, असावधान अथवा दुर्बल हो, अपनी सेनाको उत्तर आक्रमण करनेकी आज्ञा दे दे । यदि शत्रु अपनेसे बलवान् हो तो भी सर्वथा उसके अधीन न रहे । दुर्बल होनेपर भी गुप्तहपसे उसकी शक्तिको नष्ट करनेका प्रयत्न करता रहे तथा उसके मन्त्री और प्रीतिपात्र पुष्टोपयोगी भेद डलवा दे ।

जो राजा राष्ट्रका हित चाहे उसे सर्वथा युद्धमें ही नहीं लगा रहना चाहिये । बृहस्पतिजीने साम, दान और भेद-इन तीन उपायोंसे ही अर्थकी प्राप्ति बतलायी है । राजाको प्रजाकी आयका छठा भाग उसकी रक्षाके लिये ही करहपसे लेना चाहिये । राजाको अपनी प्रजापर पुत्र-पौत्रोंके समान स्नेह रखना चाहिये, किंतु न्यायके समय प्रेमवशा पक्षपात नहीं करना चाहिये । न्याय करते समय वादों और प्रतिवादी-की बातें सुननेके लिये सब विषयोंको समझानेवाले विद्वानोंको नियुक्त करना चाहिये; क्योंकि न्यायकी शुद्धि ही राज्यका आधार है । एतन, नमक, चुंगीघर, नायके घाट और हस्तिसेनापर दैवस लेनेके लिये अपने विश्वासपात्र और हितचिन्तक पुरयोंको मन्त्री बनाकर नियुक्त करना चाहिये । जो राजा ठीक-ठीक प्रकारसे न्याय करता है, उसे ही धर्मकी प्राप्ति होती है । राजाका न्यायनिष्ठ होना ही प्रधान धर्म है । इसके सिवा, उसे वेद-वेदाङ्गोंका ज्ञान, तपोनिष्ठ, दानशील और यज्ञ-यागपरायण भी होना चाहिये । राजामें ये सब गुण निरन्तर स्थिरतासे रहने चाहिये ।

यदि किसी दुर्बल राजाको कोई बलवान् शत्रु दबाने लगे तो इसीमें बुद्धिमानी है कि वह किलेके भीतर चला जाय और अपने मित्रोंके साथ मिलकर साम, भेद या युद्धके विषयमें सलाह करे । यदि युद्ध करनेका ही निश्चय हो तो पशुमालाओंको वनमेंसे उठाकर मार्गोंपर लें आवे और गाँवोंको उठाकर वनमेंसे मिला दे । धनी और सेनाके प्रधान-प्रधान अधिकारियोंको बार-बार घोरतः देखकर ऐसे स्थानोंपर पहुँचा दे जो बहुत गुप्त और दुर्गम हों तथा राज्यका सारा अन्न अपने बाधमें कर लें । नदीके कुलोंको नुष्टवा दे, जिन किलोंमें शत्रुओंके किलेकी सम्भावना हो उन्हें मघ औरसे नुष्टवा शत्रु, देवानकी शत्रुओंको छोड़कर और मघ

छोटे-मोटे पेड़ोंको उखड़वा दे, जो वृक्ष बहुत फल गये हों उनकी डालियाँ कटवा दे। नगरके चारों ओर परकोटा बनवावे, उसपर दुर्गरक्षकोंको नियुक्त करे तथा उसके चारों ओरकी खाईको जलसे भरवा दे और उत्तमें नाके और मगर-मच्छ भी छुड़वा दे। नगरमें हवा आनेके लिये और आपत्तिके समय भागनेके लिये परकोटेमें झरोखे छुड़वावे और दरवाजोंके समान उनकी चौकसीका भी पूरा-पूरा प्रबन्ध करावे। इन झरोखोंपर भारी-भारी युद्धयन्त्र और तोपें लगा दे और उनपर अपना अधिकार रखे। किलेके भीतर बहुतसा ईंधन इकट्ठा कर ले तथा नये कुएँ खुदवावे और जो कुएँ पहलेसे बने हुए हों उनकी सफाई करा दे। जिन घरोंके ऊपर छप्पर हों उन्हें मिट्टीसे लिपवा दे और चैत्रमासमें आग न लग जाय इस आशङ्कासे खेतोंकी घास उखड़वा दे। दिनके समय अग्निहोत्रके सिवा और किसी कारणसे आग न जलाने दे तथा लुहारकी भट्ठी और सूतिकागृहमें भी बहुत सावधानीसे आग जलवावे। नगरकी रक्षाके लिये ढिंढोरा पिटवा दे कि जो पुरुष दिनमें आग जलावेगा उसे भारी दण्ड दिया जायगा। ऐसे समय भिखारियोंको, हिजड़ोंको, पागलोंको और नटोंको नगरसे बाहर निकलवा दे, राजमार्गोंको चौड़ा करा दे तथा यथोचित रीतिसे पौंसालों और बाजारोंकी व्यवस्था करावे। अन्नके भण्डार, शस्त्रागार, योद्धाओंकी बारकें, अश्वशालाएँ, गजशालाएँ, सेनाकी छावनियाँ, खाइयाँ और राजमहल, बगोचे ऐसी युक्तिते तैयार करावे जिससे कोई दूसरा इन्हें देख न सके। ऐसी स्थितिमें राजाको घायलोंकी सेवाके लिये तैल, घृत, मधु और सब प्रकारकी औषधियोंका भी संग्रह करना चाहिये। इसके सिवा अंगारे, कुश, मूँज, ढाक, बाण, लेखक, घास और विषमें बुझे हुए बाणोंका भी संग्रह करे तथा सब प्रकारके शस्त्र, शक्ति, ऋषि, प्राप्त और कवच, फल-मूल और चार प्रकारके वैद्य भी तैयार रखे। ऐसे अवसरपर राजाको जिन सेवक, मन्त्री, पुरवासी या सामन्तोंकी ओरसे संदेह हो, उन्हें अपने फावूमें कर ले। जब किसी कार्यमें सफलता मिले तो उसमें सहायता देनेवालोंका बहुत-से धन, यथोचित पुरस्कार और मोठे वचनोंसे सत्कार करे।

अपना शरीर, मन्त्री, कोष, सेना, मित्र, राष्ट्र और नगर—इन सातको 'राज्य' कहते हैं। राजाको प्रयत्नपूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिये। जो राजा छः गुण, तीन वर्ग और तीन परमवर्ग—इन्हें जानता है, वह इस पृथ्वीको भोग सकता है। इनमें जिन्हें छः गुण कहा जाता है वह सुनो—संघि करके शान्तिसे बैठ जाना, चढ़ाई करना, शत्रुसे युद्ध ठानना, आक्रमणके द्वारा शत्रुको डराकर बँट जाना, शत्रुओंमें

भेद डलवा देना तथा किले या किसी दूसरे राजाका आश्रय लेना। तीन वर्ग ये हैं—क्षय, स्थिति और वृद्धि; तथा अर्थ, धर्म और काम—ये तीन परमवर्ग हैं। इन सबका यथासमय सेवन करे। अङ्गिराके पुत्र देवर्षि बृहस्पतिजीका कथन है कि 'सब प्रकारके कर्तव्योंको पूरा करके पृथ्वीका अच्छी तरह पालन करने और प्रजाकी रक्षा करनेसे राजा परलोकमें सुख प्राप्त करता है। जिस राजाने अपनी प्रजाका अच्छी तरह पालन किया है, उसे तपस्या या यज्ञादि करनेकी क्या आवश्यकता है? वह तो सभी धर्मोंको जाननेवाला है।'

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! दण्डनीति और राजा ये दोनों किस प्रकार उपयोगमें आनेपर सफलता प्राप्त कर सकते हैं—यह मुझे बताइये।

भीष्मजी बोले—राजन्! दण्डनीतिके द्वारा राजा और प्रजाका जो महाभाग्य सिद्ध होता है, उसका मैं युक्ति-युक्त शब्दोंमें वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। यदि राजा दण्डनीतिका ठीक-ठीक प्रयोग करता है तो यह चारों वर्णोंको उनके धर्मोंमें स्थित रखती है और उन्हें अधर्मकी ओर जानेसे रोकती है। इस प्रकार जब मर्यादाका नाश नहीं होता और सकुशल रहनेके कारण प्रजाको कोई खटका नहीं रहता तो तीनों वर्ण शास्त्रानुसार समतामें स्थित होनेके लिये प्रयत्न करते हैं और इसीमें मानवजातिका सुख निहित है। तुम्हें यह संदेह तो होना ही नहीं चाहिये कि राजाकी स्थिति समयके अधीन है या समय राजाके अधीन है; क्योंकि वास्तवमें समय ही राजाके अधीन है। जिस समय राजा दण्डनीतिका पूरा-पूरा प्रयोग करता है तब पृथ्वीपर पूर्णतया सत्ययुग बर्तता है। उस सत्ययुगमें धर्म-ही-धर्म रहता है, अधर्मका कहीं नामनिशान भी दिखायी नहीं देता तथा किसी भी वर्णकी अधर्ममें रुचि नहीं होती। उस समय प्रजाके योग-क्षेम स्वभावसे ही सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणोंका विस्तार हो जाता है। सभी ऋतुएँ सुख और स्वास्थ्यकी वृद्धि करती हैं, लोगोंके मन प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्योंकी आयु अल्प नहीं होती, कोई स्त्री विधवा नहीं होती और न कोई कृपण ही दिखायी देता है। पृथ्वीमें बिना जोते-बोये ही अन्न होने लगता है, औषधियाँ सुलभ हो जाती हैं तथा छाल, पत्र, फल और मूलोंमें रस आ जाता है। ये सब सत्ययुगके धर्म हैं।

इसके बाद जब राजा दण्डनीतिके चतुर्थ अंशको छोड़कर उसके तीन अंशोंको बर्तने लगता है तो त्रेतायुग आरम्भ हो जाता है। उस समय धर्मके तीन अंशोंके साथ अधर्मका भी एक अंश बर्तने लगता है और पृथ्वीसे जोतने-बोनेपर ही अन्न और औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर जब राजा

नीतिका आधा भाग त्यागकर केवल आधे भागका ही अनुसरण करता है तो द्वापरयुग आ जाता है। उस समय अघर्मके दो अंश धर्मके दो अंशोंका अनुवर्तन करने लगते हैं और पृथ्वीसे जोतने-बोनेपर ही आधा फल प्राप्त होता है। अन्तमें जब दण्डनीतिको एकदम छोड़कर राजा प्रजाको दुःख देने लगता है तो पृथ्वीपर कलियुग फल जाता है। कलियुगमें अघर्मकी ही प्रधानता होती है, धर्म कहीं देखनेको भी नहीं मिलता। सभी वर्णोंका मन अपने धर्मसे द्युत हो जाता है। शूद्रसौग मिसा माँगकर और ब्राह्मण सेवा करके अपनी आजोबिका घलाते हैं, योगक्षेमका नाश हो जाता है, वर्ण-संकरता फल जाती है, वैदिक कर्म विधिवत् सम्पन्न न होनेके कारण गुणहीन हो जाते हैं, श्रुतों सुलकारो नहीं रहतीं, ये सब रोगका ही कारण हो जाते हैं, मनुष्योंके स्वर्, धर्म और मन मलिन हो जाते हैं, सर्वत्र तरह-तरहके रोग फल जाते हैं, सौग असमयहीमें मरने लगते हैं, देशमें विधवाओंका अधिकता हो जाती है, प्रजा क्रूर हो जाती है, धर्म भी कहीं-कहीं ही होती है और खेतों भी सर्वत्र नहीं पकती। इस प्रकार

सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग इनकी रचना करनेवाला राजा ही है।

यदि राजा सत्ययुगकी सृष्टि करता है तो उसे अस्य स्वर्गकी प्राप्ति होती है; त्रेताकी रचना करनेपर उसे अस्य स्वर्ग नहीं मिलता; द्वापरकी सृष्टि करता है तो अपने पुत्रके अनुसार केवल कुछ समयतक स्वर्गमें रहता है और यदि वह कलियुगको घलता है तो उसे अत्यन्त पाप होता है। उसके कारण उसे बहुत समयतक नरक भोगना पड़ता है। तथा प्रजाके पापमें डूबकर अपयश और पापका भागी बनना पड़ता है। अतः क्षत्रियको दण्डनीतिको ज्ञान प्राप्त करके उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये। यदि इसका ठीक-ठीक उपयोग किया जाय तो यह माता-पिताके समान सौकरकी व्यवस्था और पासन करती है। सब प्राणी दण्डनीतिके आधापर हो टिके हुए हैं और दण्डनीतिके मुक्त होना ही राजाका परम धर्म है। इसलिये युधिष्ठिर! तुम नीतिनिष्ठ होकर धर्मानुसार प्रजाका पासन करो। इससे तुम दुर्जय स्वर्गसौक प्राप्त कर सकोगे।

राजाको इहलोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति करानेवाले छत्तीस गुणोंका वर्णन

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! किस प्रकारका आचरण करनेसे राजा इस लोक और परलोकमें सुख देनेवाले पदायोंको सरलतासे प्राप्त कर सकता है ?

भीष्मजी बोले—राजन्! ऐसे छत्तीस गुण हैं, यदि उनसे सम्पन्न होकर राजा आचरण करे तो उसमें यह धात आ सकती है। अब मैं क्रमशः उनका वर्णन करता हूँ—
 (१) धर्मका आचरण करे, किंतु कटुता न आने दे।
 (२) आस्तिक रहते हुए दूसरोंके साथ प्रेमका बर्ताव न छोड़े।
 (३) झूरताका आशय लिये बिना ही अर्थसंग्रह करे।
 (४) मर्यादाका अतिक्रमण न करते हुए ही विधियोंको भोगे।
 (५) दोनता न साते हुए ही प्रिय भाषण करे।
 (६) शूरवीर बने, किंतु बड़-बड़कर बातें न बनावे।
 (७) बान दे, परंतु अपावकों नहीं।
 (८) स्वष्ट व्यवहार करे, पर कठोरता न आने दे।
 (९) दुष्टोंके साथ मेल न करे।
 (१०) बन्धुप्रति कसह न जाने।
 (११) जो राजभक्त न हो ऐसे वृत्तसे काम न ले।
 (१२) किसीको कष्ट पहुँचाये बिना ही अपना कार्य करे।
 (१३) दुष्टोंसे अपनी बात न करे।
 (१४) अपने गुणोंका वर्णन न करे।
 (१५) साधुओंका धन न छीने।
 (१६) नोबोंका आशय

न ले। (१७) अच्छी तरह जाँच किये बिना दण्ड न दे।
 (१८) गुप्त मन्त्रणाको प्रकट न करे।
 (१९) सोमियोंको धन न दे।
 (२०) जिन्होंने कमी अपकार किया हो उनमें विश्वास न करे।
 (२१) किसीसे ईर्ष्या न करे और स्त्रियोंको रक्षा करे।
 (२२) गुद्ध रहे और किसीसे घृणा न करे।
 (२३) स्त्रियोंका बहुत अधिक सेवन न करे।
 (२४) स्वाविष्ट होनेपर भी जो अहितकर हो उसे न साथ।
 (२५) निरभिमान होकर माननीयोंका आदर करे।
 (२६) गुदकी निरूपणभावसे सेवा करे।
 (२७) दण्डहीन होकर वैशुजन करे।
 (२८) अनिन्दित उपायसे सद्मी प्राप्त करनेकी इच्छा रखे।
 (२९) स्नेहपूर्वक बड़ोंकी सेवा करे।
 (३०) कार्यदुराल हो, किंतु अवसरका विचार रखे।
 (३१) केवल पिण्ड छुड़ानेके लिये किसीसे विधनी-घुपड़ो बातें न करे।
 (३२) किसीपर हृष्या करते समय आशेष न करे।
 (३३) बिना जाने किसीपर प्रहार न करे।
 (३४) शत्रुओंको मारकर शोक न करे।
 (३५) अक्षस्मान् क्रोध न करे।
 (३६) जिन्होंने अपना अपकार किया हो, उनके प्रति क्रोधसत्ताका बर्ताव न करे।
 राजन्! यदि अपना हित चाहते हो तो राज्यपर स्थित रहकर इसी प्रकार व्यवहार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी

आपत्तिमें पड़ जाओगे। जो राजा इन सब गुणोंका अनुवर्तन करता है, वह इस लोकमें सुख पाता है और मरनेपर स्वर्गमें सम्मानित होता है।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पितामह भीष्मका यह उपदेश सुनकर पाण्डवश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरने उन्हें प्रणाम किया।

राजधर्मका वर्णन, राजाके लिये विद्वान् पुरोहितकी आवश्यकता तथा दोनोंमें मेल रहनेसे लाभ

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! किस तरह प्रजाका पालन करनेवाला राजा चिन्तासे बच सकता है और न्याय करनेमें भूल नहीं होने देता ?

भीष्मजीने कहा—राजन् ! यदि विस्तारके साथ राजधर्मोंका वर्णन करूँ, तब तो कभी उनका अन्त ही न होगा; इसलिये संक्षेपसे ही कहूँगा। जब घरपर शास्त्रोंके ज्ञाता धर्मिष्ठ ब्राह्मण पधारें, उस समय उन्हें देखते ही खड़े होकर उनका स्वागत करो, वंठनेको आसन दो, उनकी विधिवत् पूजा करके चरणोंमें प्रणाम करो, इसके बाद पुरोहितकी सलाहसे और सब राजकीय कार्य किया करो। धार्मिक और भाङ्गलिक कार्योंको पूर्ण करके ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराओ और अपने अमीष्टकी सिद्धि एवं विजयके लिये उनके मुखसे आशीर्वाद लो। राजाको चाहिये कि वह सरलस्वभाव होकर धैर्य तथा बुद्धिके बलसे सत्यका आश्रय ले और काम-क्रोधका परित्याग कर दे। जो राजा काम और क्रोधका आश्रय लेकर धन पंदा करना चाहता है, वह मूर्ख धर्मको तो छोड़ ही बैठता है, धन भी उसके हाथ नहीं लगता। लोभी और मूर्ख मनुष्योंको तुम अर्थ-संग्रहके काममें न लगाना। जो बुद्धिमान और निर्लौभ हों, उन्हें ही सब काम सौंपना चाहिये। मूर्खको अधिकार दे देनेपर वह कार्य करना तो ठीक-ठीक जानता नहीं, इसलिये काम और क्रोधके बशीभूत होकर अनुचित उपायोंसे प्रजाको कष्ट पहुँचाता है। प्रजाके पंदा किये हुए अन्नका छठा भाग 'कर'के रूपमें लेकर, शास्त्रके अनुसार अपराधियोंको दण्ड देकर और अपने संरक्षणमें रहनेवाले व्यापारियोंसे टैक्स लेकर धनसंग्रह करना चाहिये। राजाको धर्मानुसार कर लेना चाहिये और शास्त्रोक्त नीतिसे काम लेकर सावधानोंके साथ अपने राज्यमें प्रजाके योग-क्षेमकी व्यवस्था करनी चाहिये। जो आलस्य छोड़कर, राग-द्वेषसे रहित हों सदा प्रजाको रक्षा करता, दान देता और निरन्तर न्यायपरायण रहता है, उस राजाके प्रति प्रजाका विशेष प्रेम होता है। तुम लोभवश अधर्मसे धन पंदा करनेको कभी इच्छा न करना; क्योंकि अनुचित रीतिसे लिया हुआ

धन बुरे कामोंमें ही नष्ट होता है। जो धनका लोभी राजा मोहवश प्रजासे शास्त्रविरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुँचाता है, वह अपने ही हाथों अपना नाश करता है। जैसे दूधके लोभसे गायका थन काट लेनेवालेको दूध नहीं मिलता, उसी प्रकार अन्यायपूर्वक प्रजाको चूसनेसे राष्ट्रकी उन्नति नहीं होती। जो घरपर गौका पालन करता है, उसीको रोज दूध मिलता है; इसी तरह उचित उपायसे राष्ट्रकी रक्षा करनेवाला राजा ही उससे लाभ उठाता है। जैसे माता स्वयं तृप्त रहनेपर ही बालकको यथेष्ट दूध पिलाती है, उसी प्रकार राजासे सुरक्षित होनेपर ही यह पृथ्वी इच्छानुसार अन्न और सुवर्ण देती है। जैसे माली वृक्षोंको सींच-सींचकर बढ़ाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी प्रजाको उन्नतिशील बनाना चाहिये। यदि ऐसा वर्ताव करोगे तो चिरकालतक राज्यकी रक्षा करते हुए तुम उससे सुख उठा सकोगे। भारत ! तुम अत्यन्त कंगाल क्यों न हो जाओ, फिर भी ब्राह्मणको धनवान् देख उससे धन लेनेकी इच्छा न करना। ब्राह्मणको यथाशक्ति धन और आशवासन देने तथा उसकी रक्षा करनेसे ही तुम उत्तम लोक प्राप्त कर सकोगे।

इस प्रकार धर्मानुकूल वर्ताव करते हुए तुम प्रजाका पालन करो, इससे तुम्हें कभी परदात्ताप नहीं होगा। प्रजाकी रक्षा करना राजाका परम धर्म है। सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया और उनकी रक्षा करनेसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। राजा रक्षकार्यमें नियुक्त होकर सबपर दया करता है, इसीलिये धर्मज पुत्रोंकी दृष्टिमें वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। प्रजाकी भयसे रक्षा करनेमें यदि राजा एक दिन भी लापरवाही करता है, तो उस पापका फल उसे एक हजार वर्षोंतक भोगना पड़ता है और एक दिन भी धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करके वह जिस पुण्यका संचय करता है, उसका फल दस हजार वर्षोंतक स्वर्गमें रहकर भोगता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी लोग अपने धर्मका पालन करके अन्तमें जिन लोकोंको प्राप्त करते हैं, उन्हें ही राजा एक क्षण भी धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेसे प्राप्त कर लेता है। अतः कुन्तीमन्दन !

सुम प्रयत्न करके मेरे कथनानुसार धर्मका पालन करो । इससे तुम्हें पुण्यका फल मिलेगा और तुम्हारे मनमें कभी कोई बिन्ता नहीं होगी ।

युधिष्ठिर । धर्म और अर्थको ठीक-ठीक समझना कठिन है, यह सोचकर राजाकी चाहिये कि प्रत्येक काममें सत्परामर्श देनेके लिये एक बहुत विद्वान्को पुरोहित बनाकर रखे । जहाँ राजा और पुरोहित दोनों ही धर्मात्मा तथा राजनीतिक दृष्टि विचारोंके जाननेवाले होते हैं, उस राज्यकी प्रजाका सब ओरसे भला होता है । यदि दोनों धर्मपर आस्था रखनेवाले और एक-दूसरेके विश्वासपात्र हों, अत्यन्त तपस्वी और परस्पर हितधी हों, दोनोंके हृदय—दोनोंके चिन्तन एक-से हों तो वे अपनी प्रजाको उत्तमिणी बनाते और बेवृत्ताओं तथा पितरोंको भी तृप्त करते हैं । यदि ब्राह्मण (पुरोहित) और क्षत्रिय (राजा) दोनोंमें परस्पर सद्भाव हो तो प्रजाको सुख मिलता है और दोनोंमें वैमनस्य होनेपर प्रजाका सर्वनाश हो जाता है । इस विषयमें राजा पुरुत्वा और महर्षि करयपका संवादरूप एक प्राचीन इतिहास है, उसे सुनो ।

राजा पुरुत्वायाने पूछा—जब ब्राह्मण और क्षत्रिय



दोनों एक-दूसरेका परिचय कर दें तो दूसरे वगैरे लोग किसको प्रधान समझें और प्रजा किसका पक्ष लें ?

म० भा०—१४१

करयपने कहा—राजन् ! जहाँ ब्राह्मण क्षत्रियोंके विरोध करता है, वहाँ क्षत्रियका राज्य नष्ट हो जाता है । जब क्षत्रिय ब्राह्मणको स्थापन देते हैं तो उनका वैशाध्यपन एक जाता है, उनके पुत्रोंकी वृद्धि नहीं होती, उनके धर्ममें न रक्षितगणन होता है न पत्र तथा उनके बालक वैशाध्यपन नहीं कर पाते । ब्राह्मणोंका परिचय करनेवाले क्षत्रियोंके घर धनकी बढ़ती नहीं होती, उनकी संतान न पड़ती है न मज करती है । वे क्षत्रिय अपने पदसे छूट होकर ब्राह्मणोंकी भाँति छूट-पाट करने लगते हैं । इसलिये दोनोंको मिलकर रहना चाहिये । मिले रहनेपर दोनों एक-दूसरेकी रक्षामें समर्थ होते हैं । ब्राह्मणको उत्तमिका आधार क्षत्रिय होता है और क्षत्रियके सम्भ्रमणका आधार ब्राह्मण । दोनों जातिमें जब एक-दूसरेके आश्रित रहती हैं तो इनका विरोध गीरब बढ़ता है और यदि इनकी प्राचीन कालसे जली जाती हुई मैत्री बूट जाती है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है । जहाँ वनोंकी प्रजापर मोह छा जाता है, उसे अपना वर्तम्य नहीं समझता । इससे यह नष्ट होने लगती है । ब्राह्मणकी वृत्त यदि सुरक्षित रहे तो वह सुख और सुवर्णकी बर्षा करता है और यदि उसकी रक्षा नहीं की गयी तो जलोत्पत्त बुल और पापकी वृद्धि होती है । जहाँ ब्रह्मचारी ब्राह्मण मुँदरोंके उपद्रवसे विवश हो बेबकी शासक इत्यादिसे घञ्चित होता और उसके लिये अपनी रक्षा चाहता है (किर भी कोई रक्षक न होनेके कारण उसकी रक्षा असम्भव हो जाती है), उस देशमें पानी नहीं बरसता और महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि बुलसह उपद्रव बढ़ जाते हैं ।

जैसे सूती लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह पापियोंके सम्पर्कमें रहनेसे धर्मात्माओंको भी उनके समान बन्ध भोगना पड़ता है ; इसलिये पापियोंका संग कभी नहीं करना चाहिये । पुण्यवर्माओंकी मिसनेवाले सभी लोक सुखकी प्राप्ति और अमृतके केन्द्र होते हैं । वहाँ धीके चिराय जसते हैं । उनमें सुवर्णके समान प्रकाश फैला रहता है । वहाँ न मृगुषा प्रवेश है, न वृद्धावस्थाका । उनमें किसीको कोई बुल भी नहीं होता । ब्रह्मचारी लोग मृत्युके परचात् उहाँ लोकमें जाकर आनन्दका अनुभव करते हैं । पापियोंका लोक है नरक, जहाँ सब अंधेरा छाया रहता है । वहाँ अधिक-से-अधिक शोक और बुल प्राप्त होते हैं । पापव्यापुष्य वहाँ बहुत व्यर्थतक कष्ट भोगते हुए शोकिते हैं, उन्हें अपने लिये बहुत शोक होता है ।

ब्राह्मण-क्षत्रियमें परस्पर वैमनस्य होनेपर प्रजाको बुलसह बुलस उठाना पड़ता है । इन सब बातोंको समझ-

बूमकर राजाको एक बहुन्न पुरोहित बना ही लेना चाहिये । अपना राज्याभिषेक होनेके पहले ही पुरोहितका वरण कर लेना उचित है; क्योंकि धर्मके अनुसार ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है । वेदवेत्ता विद्वानोंका कहना है कि सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं; इसलिये वे सब वर्णोंसे ज्येष्ठ, सम्माननीय तथा पूजनीय हैं । यही नहीं, वे प्रत्येक वस्तुको पहले

भोगनेके अधिकारी हैं । अतः बलवान् होनेपर भी राजाका यह कर्तव्य है कि धर्मानुसार सभी उत्तम वस्तुएँ पहले ब्राह्मणको निवेदन करे । ब्राह्मण-जाति क्षत्रियको उन्नतिशील बनाती है और क्षत्रिय ब्राह्मणकी उन्नतिमें कारण होते हैं । इसलिये राजाको सदा ही ब्राह्मणका विशेष सम्मान करना चाहिये ।

ब्राह्मण और क्षत्रियकी सम्मिलित शक्तिका प्रभाव तथा राजाके धर्मानुकूल व्यवहारोंका वर्णन

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! राज्यकी वृद्धि और रक्षा राजाके अधीन है और राजाका अभ्युदय तथा संरक्षण पुरोहितके । जहाँ ब्राह्मण अपने तेजसे प्रजाका अदृष्ट भय दूर करता है और राजा अपने बाहुबलसे उसके प्रत्यक्ष भयका निवारण करता है, उस राज्यमें सुख और शान्ति बढ़ती है । इस विषयमें लोग राजा मुचुकुन्द और कुबेरके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । एक बार महाराज मुचुकुन्दने सारी पृथ्वीपर विजय पाकर अपने बलकी परीक्षा करनेके लिये अलकापति कुबेरपर चढ़ाई कर दी । यह देखकर कुबेरने उनका सामना करनेके लिये राक्षसोंकी सेना भेजी । राक्षसोंने मुचुकुन्दकी सेनाका संहार आरम्भ किया । यह देख मुचुकुन्द अपने विद्वान् पुरोहित वसिष्ठजीको कोसने लगे । तब वसिष्ठजीने अपने उग्र तपके प्रभावसे उन राक्षसोंका नाश कर दिया ।

तब कुबेरने राजा मुचुकुन्दके पास आकर कहा—‘राजन् ! पहले भी तुम्हारे समान बलवान् राजा हो चुके हैं और उन्हें भी पुरोहितोंकी सहायता प्राप्त थी; परंतु मेरे साथ तुम जैसा वर्ताव कर रहे हो वैसा किसीने नहीं किया, किसीका भूमपर आक्रमण नहीं हुआ । महाराज ! यदि तुम्हारी भुजाओंमें कुछ बल हो तो उसे दिखाओ । ब्राह्मणके बल पर क्यों इतना इतरा रहे हो ?’

कुबेरकी बात सुनकर मुचुकुन्दने उत्तर दिया—‘अलकापते ! ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंको ब्रह्माजीने ही उत्पन्न किया है । दोनोंका मूल एक है । ब्राह्मणोंमें तप और मन्त्रका बल होता है और क्षत्रियोंमें अस्त्र तथा भुजाओंका । उनका बल और प्रयत्न अलग-अलग हो जाय तो वे संसारकी रक्षा नहीं कर सकते । अतः दोनोंको एक साथ रहकर ही प्रजाका पालन करना चाहिये । मैं भी इस नीतिके अनुसार कार्य कर रहा हूँ, फिर आप क्यों भूमपर आक्षेप करते हैं ?’

तब कुबेरने मुचुकुन्दसे कहा—‘राजन् ! मैं न तो किसीको राज्य देता हूँ और न दूसरेका राज्य छीनता ही हूँ, तो भी आज तुम्हें सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य दे रहा हूँ । तुम इसका उपभोग करो ।’ उनके ऐसा कहनेपर मुचुकुन्दने कहा—‘महाराज ! मैं आपका दिया हुआ राज्य नहीं चाहता । मैं तो अपने बाहुबलसे जीते हुए राज्यका ही उपभोग करूँगा ।’

भीष्मजी कहते हैं—मुचुकुन्दको इस प्रकार क्षत्रिय-धर्ममें अटल देख कुबेरको बड़ा विस्मय हुआ । इसके बाद राजा मुचुकुन्द अपनी राजधानीमें लौट आये और क्षात्रधर्मका पालन करते हुए अपनी भुजाओंके बलसे प्राप्त हुई पृथ्वीका राज्य करने लगे । जो धर्मज्ञ राजा इस प्रकार पहले ब्राह्मणका आश्रय लेकर उसकी सहायतासे राज्य-कार्यमें प्रवृत्त होता है, वह बिना जीती हुई पृथ्वीको भी जीतकर महान् यशका भागी होता है । ब्राह्मणको सदा संध्या-वन्दन, तर्पण आदि अपने कर्ममें संलग्न रहना चाहिये; इसी प्रकार क्षत्रियको भी सदा शस्त्र-विद्याका अभ्यास बढ़ाना चाहिये । संसारमें जो कुछ है, वह सब इन्हीं दोनोंके अधीन है ।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! राजाका व्यवहार कैसा होना चाहिये, जिससे वह प्रजाको उन्नतिशील बनावे और स्वयं भी पुण्यलोकोंपर अधिकार प्राप्त करे ?

भीष्मजीने कहा—कुन्तीनन्दन ! राजाको सदा ही दान, यज्ञ, उपवास और तपत्या आदि शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करते हुए धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते रहना चाहिये । यदि धार्मिक पुरुष घरपर आ जायें तो खड़ा होकर उनका स्वागत और धन आदि देकर सत्कार करे; क्योंकि जब राजा धर्मका आदर करता है तो देशमें भी सर्वत्र उसका आदर होता है । राजा जैसा काम करता है, प्रजा भी वैसा ही करना पसंद करती है । राजाको चाहिये कि वह शत्रुओं-

को घमराजकी भाँति बण्ड देनेके लिये सदा तैयार रहे और ऋद्धुओंको सब धोरसे परबड़वाकर मार दे। स्नेह या स्वार्थवशा किसी दुष्टके अपराधको क्षमा न करे। राजाके द्वारा मत्सीभाँति रक्षित होकर प्रजा जो कुछ धर्म, स्वाध्याय, दान, हवन और पूजन आदि कर्म करती है, उसका एक चौपाई फल राजाको मिलता है। यदि यह प्रजाकी रक्षा नहीं करता तो उस दशामें उसके राज्यके भीतर जो कुछ पाप होता है, उसका चौपाई फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। कुछ लोगोंका मत है कि उस अवस्थामें राजाको प्रजाके पूरे पापका भागी होना पड़ता है और किन्हींके मतमें उसको आधा पाप लगता है। ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है।

अब हम उस उपायका वर्णन करते हैं, जिससे राजाको ऐसे पापोंसे छुटकारा मिल सकता है। यदि धोरोंने किसीका धन छुरा लिया हो और राजा उसका पता लगाकर लौटा सानेमें अक्षमय हो तो अपने राजानेसे उतना धन प्रजाको दे दे। अगर यह भी न हो सके तो रियासतके प्रधान-प्रधान कर्मचारियोंसे धंदा लेकर दे। ब्राह्मणके समान ही उसके धनकी भी रक्षा करना सब वर्णोंका कर्तव्य है। जो ब्राह्मणोंको कष्ट पहुँचाता हो, उसे अपने राज्यमें नहीं रहने देना चाहिये। ब्राह्मणोंकी कृपा होनेसे राजा कृतार्थ हो जाता है। जैसे सब प्राणी मेघोंके और पक्षी वृक्षोंके सहारे जीवन-निर्वाह करते हैं, वैसे ही सब मनुष्य राजाके आश्रित ही जीवन धारण करते हैं। जो राजा कामी, क्रूर और सोमी होता है, वह प्रजाका पालन नहीं कर सकता।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! मैं अपने सुलके लिये एक क्षण भी राज्यको इच्छा नहीं करता। मुझे तो धर्मके ही लिये राज्य भी पसंद था, मगर इसमें धर्म नहीं है। ऐसी दशामें राज्य लेकर क्या करना है ? अब तो मैं धर्म करनेकी इच्छासे धनमें ही जाऊँगा और वहाँकी पवित्र भाँड़ियोंमें रहकर धर्मकी आराधना करूँगा। राजबण्डका सर्वथा त्याग

कर भूषा और जितेन्द्रिय हो मुनिको भाँति फल-मूलका आहार करनेके जीवन बिताऊँगा।

भीष्मजीने कहा—मैं जानता हूँ तुम्हारी बुद्धिमें कोमलता अधिक है, मगर राजाके लिये यह गुण नहीं है। निरे कोमल स्वभावका मनुष्य राज्यका शासन नहीं कर सकता। तुम्हें अत्यन्त धार्मिक, कोमल और इमानु देलकर लोग कायर समझेगे, तुम्हारे प्रति उनकी महत्त्वबुद्धि नहीं होगी। अपने बाप-बादोंके व्यवहारको अपनाओ। तुम जिस ढंगसे रहना चाहते हो, उस तरह राजा नहीं रहते; इस प्रकार विकलता और कोमलताका आश्रय लेकर तुम प्रजापालनसे होनेवाले धर्मके फलको नहीं पा सकते। तुम्हारे पिता पाण्डु तुम्हारे लिये शूरता, बल और सत्यको ही पाधना किया करते थे; कुन्तो भी यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी महत्ता और उदारता बढ़े। दान, वेदाध्ययन, धर्म और प्रजापालन—इन्हीं कर्मोंको करनेके लिये तुम्हारा जन्म हुआ है। राजधर्मका शांता पुण्य राज्य पानेके अनन्तर किसीको दानसे, किसीको बलसे और किसीको मधुर वाणीसे अपने धरामें कर लेना है।

युधिष्ठिरने पूछा—तात ! स्वर्ग पानेका उत्तम साधन क्या है ?

भीष्मजीने कहा—मयसे डरा हुआ मनुष्य जिसके पास जाकर एक क्षण भी शान्ति पा सके, वही स्वर्गका सबसे बड़ा अधिकारी है। इसलिये तुम प्रसन्नतापूर्वक क्रूरदेशाके राजा बनो और सत्पुरुषोंकी रक्षा तथा दुष्टोंका संहार करनेके स्वर्गपर अधिकार प्राप्त करो। जैसे सब प्राणी मेघके और पक्षी वृक्षके सहारे जीवन-निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार तुम्हें और सज्जन पुरुष तुम्हारे आश्रित होकर जीविका बताने। जो राजा दुष्ट, क्रूर, प्रहार करनेवाला, इमानु, जितेन्द्रिय, प्रजापर स्नेह करनेवाला और दानी होता है, उसीका आश्रय लेकर मनुष्य जीवन-निर्वाह करते हैं।

उत्तम-अधम ब्राह्मणोंके साथ राजाका बर्ताव और केकयराजका उपाख्यान

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! कुछ ब्राह्मण अपने वर्णोचित कर्मोंमें सगरे रहते हैं और कुछ अपने वर्णके विपरीत कर्म करते हैं, उनमें क्या अन्तर है; यह मुझे बताइये।

भीष्मजीने कहा—जो विद्वान् और उत्तम सज्जनों सम्पन्न हैं, जिनकी सर्वत्र समान इष्टि है, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्माजीके समान माने गये हैं। जो ऋण, धर्म और सामवेद-

अध्ययन करके अपने कर्मोंमें लगे रहते हैं, वे ब्राह्मणोंमें वताके समान समझे जाते हैं। जिन्होंने अपने जातीय कर्मोंको छोड़-दिया है तथा जो कुत्सित कर्मोंमें प्रवृत्त होकर ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो चुके हैं, वे ब्राह्मण शूद्रके तुल्य हैं। वही तरह जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, जो अग्निहोत्र नहीं करते, वे भी शूद्रके तुल्य हैं। इन सबसे धार्मिक राजाको कर और अंगार लेनेका अधिकार है। न्यायालयमें अभियुक्तोंको अद्विकारनेका काम करनेवाले, वेतन लेकर देव-मन्दिरमें पूजा करनेवाले, ज्योतिषी, गांवके पुरोहित और रास्तेका टंक्स प्रसूत करनेवाले—ये पांच प्रकारके ब्राह्मण चाण्डालके समान हैं। ऋत्विज्, राजपुरोहित, मन्त्री, राजदूत और जासूसका काम सँभालनेवाले ब्राह्मण क्षत्रियके तुल्य माने गये हैं। घुड़सवार, हाथीसवार, रथी और पैदल सिपाहीका काम करनेवाले ब्राह्मणोंको वैश्यके समान समझा जाता है। यदि राजाके खजानेमें कमी हो तो उपर्युक्त ब्राह्मणोंसे वह कर ले सकता है। केवल उन ब्राह्मणोंसे, जो ब्रह्मा और देवताओंके समान व्रताये गये हैं, कर नहीं लेना चाहिये। राजा ब्राह्मणके सिवा अन्य सभी वर्णोंके धनका स्वामी होता है तथा जो अपने वर्णधर्मके विपरीत कर्म करते हैं, उन ब्राह्मणोंके भी धनपर राजाका ही अधिकार है। राजा कर्मभ्रष्ट ब्राह्मणको किसी तरह क्षमा न करे, बल्कि धर्मपर अनुग्रह करनेके लिये उसे दण्ड देकर धर्मात्मा ब्राह्मणोंकी श्रेणीसे अलग कर दे। धेदवेत्ता स्नातक यदि जीविकाका कोई साधन न होनेके कारण चोरी करने लगे तो राजाका कर्तव्य है कि उसके भरण-पोषणका प्रबन्ध करे। जीविका मिल जानेपर भी यदि वह चोरी करना न छोड़े तो उसे कुटुम्बसहित राज्यसे बाहर निकाल देना चाहिये।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! किन-किन मनुष्योंके धनपर राजाका अधिकार होता है और राजाको कैसा वर्तान करना चाहिये ?

भीष्मजीने कहा—राजा ब्राह्मणके सिवा अन्य सभी वर्णोंके धनका स्वामी होता है तथा जो अपने कर्मसे भ्रष्ट हो चुके हैं, उन ब्राह्मणोंके भी धनपर राजाका ही अधिकार है। उसे कर्मभ्रष्ट ब्राह्मणोंकी ओरसे लापरवाही नहीं करनी चाहिये। उन्हें दण्ड देकर राहपर लाना राजाओंका धर्म है। यदि राज्यमें ब्राह्मण चोरी करे तो वह राजाका ही अपराध समझा जाता है, उसका पाप राजाको ही लगता है। इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, सुनी। प्राचीनकालकी यात है, कैकयराज वनमें रहकर तप और स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन उन्हें एक

भयंकर राक्षसने पकड़ लिया। यह देख राजाने उस राक्षससे कहा—'मेरे राज्यमें एक भी चोर, दुराचारी और मदिरा पीनेवाला नहीं है। अग्निहोत्र और यज्ञ न करनेवाला भी कोई नहीं है। फिर मेरे शरीरके भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया ? मेरे देशमें एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है, जो विद्वान् और तपस्वी न हो। मेरे राज्यके लोग पर्याप्त दक्षिणा दिये बिना यज्ञ नहीं करते। व्रतधारण किये बिना कोई वेद नहीं पढ़ता। ब्राह्मणलोग अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह—इन छः कर्मोंमें लगे रहकर ही जीविका चलाते हैं। सभी ब्राह्मण मृदुलस्वभाव, सत्यवादी, अपने धर्मका पालन करनेवाले तथा मेरे सम्मानपात्र हैं; सबको राज्यसे वृत्ति मिलती है। मेरे राज्यके क्षत्रिय किसीसे याचना नहीं करते, स्वयं दान देते हैं। वे सत्यवादी और धार्मिक हैं। वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं; यज्ञ करते हैं, कराते नहीं। ब्राह्मणोंकी रक्षा करते हैं और संग्राममें कभी पीठ नहीं दिखाते। मेरे यहाँके वैश्य भी अपने कर्मोंमें ही लगे रहते हैं। वे छल-कपट छोड़कर खेती, गोरक्षा और व्यापार-से जीविका चलाते हैं। प्रमादमें वक्त नहीं बिताते, सदा काममें ही लगे रहते हैं। उत्तम व्रतोंका पालन और सत्य-भाषण करते हैं। अभ्यागतोंको देकर खाते हैं तथा सबके हितका ध्यान रखते हैं। इन्द्रियसंयम और पवित्रता कभी नहीं छोड़ते। मेरे राज्यके शूद्र भी अपने कर्तव्यसे विमुक्त नहीं होते; वे ब्राह्मणादि तीनों वर्णोंकी सेवासे जीविका चलाते हैं और किसीकी निन्दा नहीं करते।

'मैं भी दीन-दुखी, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, आतुर तथा स्त्रियोंको अन्न-वस्त्र देता रहता हूँ। अपने कुलधर्म, देश-धर्म तथा जातिधर्मकी परम्पराका कभी लोप नहीं होने देता। अपने राज्यके तपस्वियोंकी मैंने सदा ही पूजा और रक्षा की है; उन्हें सत्कारपूर्वक आवश्यक वस्तुएँ दान की हैं। मैं देवता, पितर तथा अतिथि आदिको उनका भाग अर्पण किये बिना कभी भोजन नहीं करता, परायी स्त्रीकी ओर कुदृष्टि नहीं डालता। विद्वानों, बूढ़ों और तपस्वियोंका तिरस्कार नहीं करता। जब सारा देश सोता है, उस समय भी मैं उसकी रक्षाके लिये जागता रहता हूँ। मेरे पुरोहित आत्मज्ञानी, तपस्वी और सब धर्मके ज्ञाता हैं; वे बड़े बुद्धिमान् तथा सारे राज्यके स्वामी हैं। मैं धन-दान देकर विद्या पानेकी इच्छा रखता हूँ, सत्यभाषण तथा ब्राह्मणोंकी रक्षा करके पुण्यलोकोंपर अधिकार पाना चाहता हूँ और सेवाद्वारा गुरुजनोंको अनुकूल रखता हूँ। मेरे राज्यमें विधवा स्त्री नहीं है और अधम, धूर्त, चोर, अनधिकारियोंसे

यज्ञ करानेवाले तथा पापपरायण ब्राह्मणका भी अभाव है; इसलिये मुझे राक्षसोंसे तनिक भी भय नहीं है !

राक्षसने कहा—केक्यराज ! आप सब अवस्थाओंमें धर्मपर ही दृष्टि रखते हैं; इसलिये आपका भला हो, अपने घर जाइये। मैं भी आपको छोड़कर लौट जाता हूँ। जो भी, ब्राह्मण तथा प्रजाको रक्षा करते हैं, उन राजाओंको राक्षसोंमें भय नहीं होता।

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! इसलिये ब्राह्मणोंकी सदा रक्षा करनी चाहिये। सुरक्षित रहनेपर वे भी राजाओंकी रक्षा करते हैं। ठोक्-ठोक् बर्ताव करनेवाले राजाओंको ब्राह्मणोंका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः उन्हें कर्मभ्रष्ट ब्राह्मणोंपर नियन्त्रण रखना चाहिये, यही राजाका उनपर अनुग्रह है। जो राजा अपने नगर और राष्ट्रकी प्रजाके साथ इस प्रकार धर्मपूर्ण बर्ताव करता है, वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें स्वर्गलोकमें इन्द्रके समान सुख भोगता है।



आपत्कालमें ब्राह्मण आदि वर्णोंके कर्तव्य तथा श्रुतिवर्णिके लक्षण

युधिष्ठिरने पूछा—भारत ! ब्राह्मणका यदि अपने धंधेसे गुजर न हो सके तो वह आपत्कालमें वंशधर्मके अनुसार जीविका चला सकता है या नहीं ?

भीष्मजीने कहा—ब्राह्मण अपनी जीविका नष्ट होनेपर संकटके समय यदि क्षत्रियधर्मसे भी जीवन-निर्वाह करनेमें असमर्थ हो जाय तो वंशधर्मके अनुसार खेती करके और गोरों पालकर गुजर कर सकता है।

युधिष्ठिरने पूछा—भरतकुलभूषण ! यह तो बताइये, ब्राह्मण यदि वंशधर्मसे जीविका चलाते समय ध्यापार भी करे तो किन-किन वस्तुओंको खरीद-बिक्री करनेसे वह स्वर्ग-लोककी प्राप्तिके अधिकारसे वञ्चित नहीं होगा ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! ब्राह्मणको मदिरा, मांस, शहद, नमक, तिल, पकाया हुआ अन्न, घोड़ा, बैल, गाय, बकरा, भेड़ और भैंस आदि पशु—इन वस्तुओंका तो हर हालतमें त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि इनको बेचनेसे उसे नरकमें जाना पड़ता है। बकरा भैंस, भेड़ वरुण, घोड़ा सूयं, पृथ्वी विरारू तथा भी यज्ञ एवं सोमका स्वरूप है; इन्हें

किसी तरह नहीं बेचना चाहिये। कच्चा अन्न देकर पकाया हुआ अन्न लेनेसे अधर्म नहीं होता। इस विषयमें सनातन कालसे चला आता हुआ धर्म बतला रहा है, सुनो। मैं आपको अमूक वस्तु देता हूँ, इसके बदले आप मुझे अमूक वस्तु दीजिये यह कहकर दोनोंकी शर्तसे किया हुआ बदला धर्म माना जाता है। जबरदस्ती बदला नहीं करना चाहिये। इस प्रकार श्रुतियों तथा अन्य सत्पुरुषोंके ध्यवहार प्राचीन कालसे चले आते हैं।

युधिष्ठिरने पूछा—महाराज ! यदि सारी प्रजा राष्ट्र धारण कर से और अपना धर्म छोड़ बैठे, उस समय क्षत्रियकी शक्ति तो क्षीण हो जायगी; फिर वह राष्ट्रकी रक्षा कैसे कर सकता है ? किस तरह सबको शरण दे सकता है ?

भीष्मजीने कहा—ऐसे समयमें जिनमें देव-शास्त्रोंका बल हो, वे ब्राह्मण सब ओरसे उठकर राजाकी ताकत बढ़ायें। जिसकी शक्ति क्षीण हो रही हो, उस राजाको ब्राह्मणके बलका आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी चाहिये। जब ढाकू और सुटेरे प्रजामें वर्णसंकरता फैला रहे हों और

उनके द्वारा धर्म-मर्यादाका उल्लङ्घन हो रहा हो, उस समय इस अत्याचारको रोकनेके लिये यदि सब जातिके लोग भी हथियार उठावें तो कोई दोष नहीं होता ।

युधिष्ठिरने पूछा—यदि क्षत्रिय-जाति ही सब ओरसे ब्राह्मणोंके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उस समय ब्राह्मण अथवा वेदकी रक्षा कौन करे ? ऐसे अवसरपर विप्रका क्या कर्तव्य है ? वह किसकी शरणमें जाय ?

भीष्मजीने कहा—उस समय ब्राह्मण अपने तपसे, ब्रह्मचर्यसे, हथियारसे, बलसे, सद्व्यवहारसे अथवा कपटसे—जैसे भी हो, उसी तरह क्षत्रिय-जातिकी दबानेका प्रयत्न करे; क्योंकि जब क्षत्रिय ही प्रजाके ऊपर, उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणोंके साथ अत्याचार करने लगे तो उसे ब्राह्मण ही दबा सकता है; कारण यह कि क्षत्रिय ब्राह्मणसे ही उत्पन्न हुए हैं । जलसे अग्निकी, ब्राह्मणसे क्षत्रियकी और पत्थरसे लोहेकी उत्पत्ति हुई है; इनका प्रभाव सब जगह तो काम करता है, मगर अपनेको उत्पन्न करनेवाले मूल कारणसे मुकाबला पड़नेपर शान्त हो जाता है । जब लोहा पत्थर काटता है, अग्नि जलके पास जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मणसे द्वेष करने लगता है तो ये तीनों नष्ट हो जाते हैं । यद्यपि क्षत्रियका तेज और बल प्रचण्ड तथा अजेय होते हैं, तो भी ब्राह्मणसे मुकाबला होनेपर मंद पड़ जाते हैं । यदि फदाचित्त ब्राह्मणकी शक्ति कम हो गयी हो और क्षत्रिय-जाति भी दुर्बल पड़ गयी हो, उस समय जब सब वर्णोंके लोग ब्राह्मणोंके साथ अत्याचार करते हों तो जो लोग ब्राह्मणोंकी, धर्मकी तथा अपनी रक्षाके लिये प्राणोंकी परवा न करके दुष्टोंके साथ क्रोधपूर्वक लड़ते हैं, उन मनस्वी पुरुषोंको पुण्यलोकोंकी प्राप्ति होती है । ब्राह्मणकी रक्षाके लिये सबको शस्त्र ग्रहण करनेका अधिकार है । यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या और निराहार व्रत करनेवाले लोगोंको जिन उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, उनसे भी उत्तम लोक ब्राह्मणके लिये प्राण देनेवाले शूरवीरोंको प्राप्त होते हैं । ब्राह्मण भी यदि तीनों वर्णोंकी रक्षाके लिये शस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता । जो लोग ब्राह्मणोंसे द्वेष करनेवाले दुराचारियोंको दबानेके लिये युद्धकी ज्वालामें अपने शरीरकी आहुति दे डालते हैं, उन वीरोंको नमस्कार है । मनुजीने कहा है कि ऐसे लोगोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है । जैसे अश्वमेध यज्ञके अन्तमें अवमूय-स्तान करनेवाले मनुष्य पापरहित होकर पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार युद्धमें शस्त्रोंद्वारा भारे गये वीर भी पवित्र हो जाते हैं । सबके साथ

भैत्रीका व्यवहार करनेवाले धर्मात्मा मनुष्य भी देश-कालकी परिस्थितिके अनुसार दूसरोंकी रक्षाके लिये कठोरतापूर्ण बर्ताव—हिसारूप पाप करते हैं, तो भी उन्हें उत्तम गति ही प्राप्त होती है । अपनी रक्षाके लिये, अन्य वर्णोंमें यदि कोई बुराई आ रही हो तो उसको रोकनेके लिये तथा दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये—इन तीन अवसरोंपर ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता ।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! जब लुटेरे अपना सिर उठावें, क्षत्रिय निर्वल हों, सब वर्णोंके लोग एक-दूसरेकी स्त्रियोंके साथ बलात्कार करने लगे और प्रजाकी रक्षाका कोई उपाय न सूझे, उस अवस्थामें यदि कोई बलवान् ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र धर्मकी रक्षाके लिये दण्ड धारण करके प्रजाको लुटेरोंके हाथसे बचावे तो वह राजा हो सकता है या नहीं, राजकार्य कर सकता है या नहीं ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! जो अपार संकटसे पार लगा दे, बिना नावके डूबते हुएको नाव बनकर सहारा दे, वह शूद्र हो या कोई और, सर्वथा सम्मानके योग्य है । डाकुओंके आक्रमणका शिकार होकर कष्ट पाती हुई अनाथ प्रजाको जिसकी शरणमें जानेसे सुख मिले, उसीको अपना बन्धु समझकर प्रेमसे सत्कार करना चाहिये । दूसरोंका भय दूर करनेवाला मनुष्य कोई भी क्यों न हो, आदरका पात्र है । काठका हाथी, चमड़ेका हिरन, हिजड़ा मनुष्य, ऊसर खेत, नहीं बरसनेवाला बादल, अपढ़ ब्राह्मण और रक्षा न करनेवाला राजा—ये सबके-सब निरर्थक हैं । जो सदा सत्पुरुषोंकी रक्षा करे और दुष्टोंको दण्ड दे वही राजा बनाने योग्य है, वही समूचे राष्ट्रका भार संभाल सकता है ।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! यज्ञके ऋत्विज् कंसे होने चाहिये ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! जो ऋक्, साम और यजुर्वेदके शाता, मीमांसाके विद्वान् और राजाके लिये शान्ति-पुष्टि आदि कर्म करनेवाले हों, वे ही ऋत्विज् होने योग्य हैं । वे सब एक तरहके विचारवाले, एक-दूसरेके हितैषी, सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाले, दयालु, सत्यवादी, ब्याज न लेनेवाले तथा सरल स्वभावके होने चाहिये । इसी तरह जो विद्वान् द्रोह और अभिमानसे रहित, लज्जा-क्षमा-शम-दम आदि गुणोंसे युक्त, बुद्धिमान्, सत्यवादी, धीर, अहिंसक, राग-द्वेषसे शून्य, कुलीन, शास्त्रज्ञ, सदाचारी और ज्ञानसे संतुष्ट हो, वही 'ब्रह्मा' के आसनपर बैठनेका अधिकारी है । तात ! ये सभी ऋत्विज् महान् एवं सम्मानके योग्य हैं ।

मित्र और अमित्रोंकी पहचान

मुष्टिठरने पूछा—पितामह ! छोटे-से-छोटा काम भी अकेले किसीकी सहाय्यताके बिना करना कठिन हो जाता है। फिर राजाका कार्य तो दूसरेकी सहाय्यता लिये बिना ही ही कैसे सकता है ? इसलिये मन्त्रीका होना आवश्यक है। अब आप बताइये, राजाका मन्त्री कैसे होना चाहिये ? उसका स्वभाव और आचरण किस तरहका हो, कैसे व्यवहार पर विश्वास किया जाय और कैसेपर नहीं ?

भीष्मजीने कहा—राजाके चार प्रकारके मित्र होते हैं—सहाय, भ्रजमान, सहज और कृत्रिम*। पाँचवाँ मित्र धर्मात्मा होता है, वह किसी एकका पक्षपाती नहीं होता और न दोनों पक्षोंसे बेतन लेकर कष्टपूर्वक दोनोंका ही मित्र बना रहता है। जिधर धर्मका पला मजबूत रहता है, उसी पक्षका यह आश्रय ग्रहण करता है अथवा जो राजा धर्ममें स्थित होता है, वही उसे अपनी ओर खींच लेता है। उपर्युक्त मित्रोंमेंसे भ्रजमान और सहज श्रेष्ठ समझे जाते हैं, शेष दोकी ओरसे तो सदा साराङ्ग रहना चाहिये। वास्तवमें तो अपने कार्यको दृष्टिमें रख सब प्रकारके मित्रोंसे ही सावधान रहना चाहिये। राजाको मित्रोंको रखा करनेमें कभी असावधानी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि असावधान राजाका सब लोग तिरस्कार करते हैं। मनुष्यका चित्त चञ्चल होता है, भला मनुष्य बुरा और बुरा भला हो जाया करता है, शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाता है; अतः किसपर कौन विश्वास करे ? इसलिये मुख्य-मुख्य कार्योंको दूसरोंपर न छोड़कर अपने सामने ही कराना चाहिये। किसीपर भी पूरा-पूरा विश्वास कर लेनेसे धर्म और अर्थ दोनोंका नाश होता है। दूसरोंपर पूरी तरह विश्वास करना अकाल मृत्युको मोल लेना है; अर्थात् विश्वासियोंको विपत्तिमें पड़ना पड़ता है। वह जिसपर विश्वास करता है, उसीको इच्छापर उसका जीना निर्भर रहता है। इसलिये राजाको कुछ

* सहाय मित्र उनको कहते हैं, जो किसी शत्रुपर एक-दूसरेकी सहाय्यताके लिये मित्रता करते हैं। 'अमुक शत्रुपर हम दोनों मिलकर चढ़ाई करें, विजय होनेपर दोनों उसके राज्यको आधा-आधा बाँट लेंगे'—इत्यादि शत्रु 'सहाय' मित्रोंमें होती है। जिनके साथ पुत्रोंकी मित्रता हो, वे 'भ्रजमान' कहलाते हैं। जिनसे नजदीकी रिश्तेदारी हो, उन्हें 'सहज' मित्र कहते हैं और धन आदि देकर अपनाये हुए लोग 'कृत्रिम' मित्र कहलाते हैं।

सगोपण विश्वास भी करना चाहिये और उनकी ओरसे सतर्क भी रहना चाहिये। यही सनातन राजनीति है।

अपने अभावमें जिस मनुष्यका राज्यपर कब्जा हो सकता हो उससे सदा चौकन्ना रहना चाहिये; क्योंकि वित्त पुरुषोंने उसकी शत्रुओंमें गणना की है। जो मनुष्य राजाका अस्पृश्य देख उसकी और भी अधिक उन्नति चाहे और अवन्ति होनेपर बहुत दुखी हो जाय, वही उत्तम मित्र है। अपने न रहनेपर जिस व्यक्तिकी विशेष हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो, उसपर पिताके समान विश्वास करना चाहिये और जब अपने धनको युद्ध होतो ही तो पथाश्रित उसको भी समुद्रशाली बनाना चाहिये। जो धर्मके कामोंमें भी राजाको नुकसानसे बचानेका ध्यान रखता है, उसकी हानि देखकर जिसको भय होता है, उसे ही उत्तम मित्र समझे। नुकसान चाहनेवाले तो शत्रु ही बताये गये हैं। जो मित्रकी उन्नति देखकर जलता नहीं और विपत्ति देखकर धबका उठता है, वह मित्र अपने आत्माके समान है। जिसका स्व-रंग सुन्दर और स्वर मीठा हो, जो क्षमाशील, ईर्ष्यारहित, प्रतिष्ठित और कुलीन हो, उसकी योग्यता पूर्वोक्त मित्रसे भी बढ़कर है। जिसकी युद्धि अच्छी और स्मरणशक्ति तीव्र हो, जो कार्य साधनेमें कुशल और स्वभावतः दयालु हो, कभी मान या अपमान ही जानेपर जिसके हृदयमें दुर्भाव नहीं आता ऐसा मनुष्य यदि श्रुतिवज्, आचार्य अथवा अत्यन्त सम्मानित मित्र हो तो उसे तुम अपने धरमें मन्त्री बनाकर रख सकते हो; वह तुम्हारे विशेष आदरका पात्र है। उसको राजकीय गुप्त विचारों तथा धर्म और अर्थको प्रकृतिसे परिचित रखना। उसके ऊपर तुम्हारा पिताके समान विश्वास होना चाहिये। एक कामपर एक ही व्यक्तिको नियुक्त करना, दो या तीनको नहीं; क्योंकि जन्में परस्पर अमर्ष हो जानेकी सम्भावना रहती है। कारण कि एक कार्यपर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तियोंमें प्रायः मतभेद होता ही है।

जो कौतिको प्रधानता देता और मर्यादाके भीतर काम्य रहता है, शक्तिशाली पुरुषोंसे द्वेष और अन्वय नहीं करता, कामना, भय, लोभ अथवा क्रोधसे भी जो धर्मका रक्षण नहीं करता, जिसमें कार्यकुशलता तथा आवश्यकताके अनुसंधान बातचीत करनेकी पूरी योग्यता हो, उसे तुम अपना प्रधान मन्त्री बनाना। जो कुलीन, शीलवान्, सहनशील, डींग न मारनेवाले, शूरवीर, आर्थ, विद्वान् तथा कर्तव्य-अकर्तव्यको समझनेमें कुशल हों, उन्हें अमात्यके पदपर बिनाना एवं

सत्कारपूर्वक सुख और सुविधा देना। ये तुम्हारे अच्छे सहायक सिद्ध होंगे और सब तरहके कामोंकी देख-भाल करेंगे।
 पृथिविष्ठर ! तुम अपने कुटुम्बियोंको मृत्युके समान समझकर उनसे सदा डरते रहना। जैसे पड़ोसी राजा अपने पासके राजाकी उन्नति नहीं सह सकता, उसी प्रकार एक कुटुम्बी दूसरे कुटुम्बीका अभ्युदय नहीं देख सकता। जिसके कुटुम्बी या सगे-सम्बन्धी नहीं हैं, उसको भी सुख नहीं मिलता; इसलिये कुटुम्बीजनोंकी अशहलना नहीं करनी चाहिये। बन्धु-बान्धवसे हीन मनुष्यको दूसरे लोग दबाते रहते हैं। दूसरोंके दवानेपर अपने भाई-बन्धु ही सहारा देते हैं। यदि गैर आदमी अपने जातिवालेका अपमान कर रहा हो, तो सजातीय बन्धु उसे कभी दरदाशत नहीं कर सकता। अपने जातिवालेके अपमानको वह अपना ही अपमान

समझेगा। इस प्रकार कुटुम्बीजनोंके रहनेमें गुण भी है और अवगुण भी। कुटुम्बका व्यक्ति न अनुग्रह मानता है, न नमस्कार करता है। उनमें भलाई-बुराई दोनों देखनेमें आती हैं। राजाका कर्तव्य है कि वह अपने जातीय बन्धुओंका वाणी और क्रियासे सत्कार करे। सदा ही उनकी भलाई करता रहे, कभी कोई बुराई न होने दे। उनपर विश्वास तो न करे किन्तु विश्वास करनेवालेकी भांति ही उनके साथ बर्ताव करे। उनमें दौघ है या गुण—इसकी चर्चा न करे। जो पुरुष सदा सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है, उसके शत्रु भी प्रसन्न होकर उसके साथ मित्रताका बर्ताव करने लगते हैं। जो कुटुम्बी, सगे-सम्बन्धी, मित्र, शत्रु तथा उदासीन व्यक्तियोंके साथ इस नीतिके अनुसार व्यवहार करता है, उसका सुयश चिरकालतक बना रहता है।

मन्त्रीकी जाँच—कालकवृक्षीय मुनिका उपाख्यान

भीष्मजी कहते हैं—ऊपर जो बताया गया है, वह राजनीतिकी पहली धृति है; अब दूसरी सुनो। जो भी मनुष्य राजाकी आर्थिक उन्नति करे, उसको राजाको सदा रक्षा करनी चाहिये। यदि मन्त्री खजानेसे धनकी चोरी करता हो और कोई सेवक या तटस्थ मनुष्य इस बातकी सूचना देने आवे तो उसकी बात एकान्तमें सुननी चाहिये और मन्त्रीसे उसकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि धन हड़पनेवाले मन्त्री अवसर ऐसे लोगोंको मार डालते हैं। खजाना लूटनेवाले लोग एकमत होकर उसके रक्षकको कष्ट देते हैं; यदि राजाकी ओरसे उसकी रक्षाका प्रबन्ध नहीं हुआ तो वह बेचारा बेमौत मारा जाता है। इस विषयमें कालकवृक्षीय मुनि और कौसल्यराजके संयारूप प्राचीन इतिहासका लोग उदाहरण दिया करते हैं। सुना है कि एक बार कौसल देशके राजा क्षेमदर्शिके यहाँ एक कालकवृक्षीय नामके मुनि पधारे। वे बंद पिंजड़ेमें एक कौआ लिये राज्यका समाचार जाननेके लिये उस राजाके राज्यमें कई बार चक्कर लगा चुके थे। घूमते समय वे लोगोंसे कहते थे—'सज्जनो ! तुमलोग भी कौएकी विद्या सीखो; मैंने सीखा है, इसलिये कौए मुझे भूत और भविष्यकी बातें बता दिया करते हैं।' इस प्रकार घोषणा करते हुए वे बहुत लोगोंके साथ राज्यमें घूमते फिरे। उस समय उन्होंने राजकार्यमें गियत किये हुए कर्मचारियोंकी बहुत-सी अनुचित कार्रवाइयाँ देखीं। राष्ट्रके सभी व्यवसायों-पर उन्होंने दृष्टि डाली और उसकी असलियतका पता लगाया। जो राजाके धनका अपहरण करते थे, उनको भी



जान लिया। इसके बाद वे कौएको साथ लेकर राजासे मिलने आये और बोले 'मैं इस राज्यकी सारी बातें जानता हूँ।' सबसे पहले वे राजमन्त्रीसे जाकर बोले—'मेरा कौआ कहता है तुमने अमुक स्थानपर अमुक काम किया है, राजाके खजानेसे चोरी भी की है, इस बातको अमुक-अमुक व्यक्ति

जानते हैं। इसलिये शीघ्र ही राजाके पास धलकर अपराध स्वीकार करो।' इसी तरह उन्होंने और कई आश्रमियोंसे कहा, उन लोगोंने भी खजातेसे चोरी की थी। वे सबसे कहते थे, 'मेरे कौएकी कोई भी बात आजतक झूठी नहीं सुनी गयी। तुमलोग अवश्य अपराधी हो।'।

इस प्रकार जब मुनिने राजकर्मचारियोंका तिरस्कार किया तो सबने मिलकर मुनिके सौ जानेपर रातमें उनके कौएको मरवा डाला। सबने उठनेपर जब उन्होंने देखा कि मेरा कौआ पिंजड़ेमें बाणसे विद्यकर मरा पड़ा है, तो राजा क्षेमदशार्थके पास जाकर कहा—'राजन्! आप प्रजाके प्राण और धनके स्वामी हैं, मैं आपसे अभयकी याचना करता हूँ; यदि आशा हो तो मैं आपके हितकी बात बताऊँ।' राजाने कहा—'विप्रवर! मैं अपना हित चाहता हूँ और आप मेरे हितकी ही बात कहनेवाले हैं, ऐसी वशामें क्षमा क्यों नहीं करूँगा? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके कहे अनुसार कामें करूँगा; आप जो कुछ कहना चाहते हैं, बेलटके कहें।'।

मुनिने कहा—महाराज! आपके कर्मचारियोंमेंसे कौन अपराधी है और कौन निरपराध—इस बातका पता लगाकर तथा आपपर सेवकोंकी ओरसे भय आनेवाला है—यह जानकर प्रेमपूर्वक राज्यका सारा समाचार बतानेके लिये आपके पास आया हूँ। नीतिज्ञ पुरुषोंका कहना है कि जिसका राजाके साथ उठना-बैठना होता है, उसका विरले साँपोंके साथ सहवास समझना चाहिये; क्योंकि राजाके जहाँ बहुतेरे मिव हैं, वहाँ बहुतसे दुश्मन भी होते हैं। राजाके पारिवर्तियोंको उन सबसे भय होता है। स्वयं राजासे भी उन्हें क्षण-क्षणमें खतरा रहता है। जो अपना भला चाहता हो, उसे राजाके पास कभी प्रभाव नहीं करना चाहिये। जैसे जलती हुई आगके पास मनुष्य सचेत होकर जाता है, उसी तरह शिक्षित पुरुषको राजाके पास सावधानीके साथ रहना चाहिये। राजा प्राण और धन—दोनोंका स्वामी है; वह जब क्रोध करता है तो विषधर साँपके समान भयंकर हो जाता है। अतः सेवकोंको अपनी जान होखेलेपर लेकर बड़े यत्नसे राजाकी सेवा करनी चाहिये। मूँहसे कोई झुरी बात न निकल जाय, खड़ा रहते, उठते, बैठते, चलते और द्वाराकर करते समय कोई बेजबबी न हो जाय तथा शरीरसे कोई कुचेष्टा न प्रकट हो जाय—इन सब बातोंके लिये सदा सतर्क रहना चाहिये। राजाको यदि प्रसन्न कर लिया जाय तो वह देवताकी भाँति सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है और यदि क्रुपित हो गया तो आगकी भाँति जड़-मूलसहित भस्म कर डालता है।

मेरे-जैसा मन्त्री आपत्कालमें बुद्धिद्वारा सहायता देता है। राजन्! आपको पता नहीं, मेरा यह कौआ आपके ही कार्यमें मारा गया है। किंतु इसके लिये मैं आपको और आपके प्रेमियोंको दोष नहीं दे सकता; आप खुद अपने हित और अहितको पहचानिये, स्वयं राजकीय कार्योंके बेलिये, दूसरोंकी देख-भालपर विरवास्त न कीजिये। जो लोग आपके ही घरमें रहकर आपका खजाना सूटते हैं, वे प्रजाकी भलाई चाहनेवाले नहीं हैं; उन्हीं लोगोंने मेरे साथ बंद बाँध लिया है। जो आपका विनाश करके इस राज्यको हृष्य सेना चाहता है, वह इसके लिये अन्त-पुरमें आने-जानेवाले नौकरोंसे मिलकर कोई यद्ध्यन्त्र करनेकी फिक्रमें है। ऐसा ही करनेसे उसका काम बनेगा, अग्यया नहीं। अतः आपको सावधान हो जाना चाहिये। मैं कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया था, तो भी यद्ध्यन्त्रकारियोंने कपट करनेकी इच्छासे मेरे कौएको मारकर यमलोक पहुँचा दिया। यह बात मुझे अपने तपोबलसे मालूम हुई है। जैसे हिमासयकी कन्दरामें ठूँठ, पत्थर और कड़े होते हैं, उसके भीतर सिंह और व्याघ्रोंका निवास होता है और इन्हीं सब कार्योंसे उसमें प्रवेश करना तथा रहना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियोंके कारण इस राज्यमें भी कितोका रहना मुश्किल है। इस स्थानपर रहनेमें भलाई नहीं है, यहाँ अच्छे और बुरेकी एक-सी गति है। पापी और पुण्यात्मा (अपराधी और निरपराध) दोनोंके ही मारे जानेका अंशेरा है। न्यायतः तो पापीको दण्ड मिलना चाहिये और पुण्यात्माका कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिये। मगर इस राज्यमें ऐसा नहीं होता, अतः यहाँ रहना ठीक नहीं है। समन्वय मनुष्यको तो जल्दी ही यहाँसे लिप्तक जाना चाहिये। सीता नामकी एक नदी है, जिसमें नाव ही डूब जाती है; ऐसी ही आपके यहाँकी राजनीति भी है। इसमें मेरे-जैसे सहायकोंके भी डूबनेकी आशा है। मैं तो इसे सबको नष्ट करनेवाली एक प्रकारकी कौसी ही समझता हूँ।

राजन्! आपने ही जिनहें मन्त्री बनाया, आपने ही जिनका पालन किया, वे आपसे ही मिलकर आपके हितका नाश करना चाहते हैं। मैं राजाके साथ रहनेवाले अधिकारियोंका शील-स्वभाव जानना चाहता था, इसलिये बहुत बरता हुआ सावधानीके साथ रहा हूँ—ठीक उसी तरह जैसे कोई साँपवाले मकानमें रहता है। इस देशके राजा जितेन्द्रिय हैं या नहीं? इनके अंदर रहनेवाले सेवक इनके वशमें तो हैं? इनका राजापर प्रेम तो है? अथवा राजा अपनी प्रजासे प्रेम करते हैं न? मे ही सब बातें जाननेकी इच्छासे मैं यहाँ आया था। जैसे भूखेको चीजन अच्छा

करता है, उसी प्रकार आपको देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई; किन्तु आपके मन्त्री अच्छे नहीं जान पड़ते। मैं आपकी सलाह करनेवाता हूँ—यही इन लोगोंने मुझमें सबसे बड़ा दोष पाया है। यद्यपि मैं इन लोगोंने द्रोह नहीं करता, तो भी मुझे द्रोही समझकर ये मूखपर दोषवृष्टि रखने लगे हैं। जिनकी पीठ तोड़ दी गयी हो, उस साम्राज्यके जनान बुद्ध हृदयवाले शत्रुसे सदा डरते रहना चाहिये। इसीलिये वद मैं यहाँ रहना नहीं चाहता।

राजाने कहा—ब्राह्मणश्रेष्ठ ! आप मेरे महलमें रहिये, मैं आपको बड़ी श्रद्धासे और सत्कारसे रखूँगा। जो आपको नहीं रहने देना चाहेंगे, वे खुद ही नहीं रहने पायेंगे। इसके बाद उन लोगोंके साथ कैसा व्यवहार किया जाय, इसको आप ही सोचिये। भगवन् ! जित तरह राजदण्डको मैं अच्छी तरह धारण कर सकूँ और मेरेद्वारा अच्छे ही कार्य होते रहें, वह सब सोचकर आप मुझे कल्याणके मार्गपर लगाइये।

मुनिने कहा—राजन् ! पहले तो आपको मारनेका जो अराध है, इसके प्रकट किये बिना ही एक-एक मन्त्रीको उसका अधिकार छीनकर कुदल कर डालिये। इसके बाद अराधके कारणका पूरा-पूरा पता लगाकर फन्ना: एक-एक व्यक्तिको नीतके घाट उतार दीजिये। एक-एक करके मारनेको इसलिये कहता हूँ कि बहुतसे

लोगोंपर जब एक ही तरहका दोष लगाया जाता है, तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं; उस दशामें वे बड़े-बड़े कंटकोंको भी मसल डालते हैं। अतः यह गुप्त विचार कहीं दूसरोंपर प्रकट न हो जाय, इसी भयसे ये बातें बता रहा हूँ।

राजन् ! अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ—मेरा आपके साथ पुराना सम्बन्ध है, मैं आपके पिताका आदरणीय मित्र हूँ, मेरा नाम है कालकवृक्षीय मुनि। जब आपके राज्यपर संकट आया और आपके पिताका स्वर्गवास हो गया, उस समय सब काननाओंका त्याग करके मैं तपस्या करने चला गया। आपके ऊपर विशेष स्नेह होनेके कारण ही मैं पुनः यहाँ आया हूँ और आपको ये बातें बता रहा हूँ; इसका उद्देश्य यही है कि आप फिर किसीके चक्करमें न पड़ें। आपने सुख और दुःख दोनों ही देखे हैं, यह राज्य आपको देवेछाते प्राप्त हुआ है। तो भी आप इसे मन्त्रियोंपर छोड़कर क्यों मूल कर रहे हैं ?

तदनन्तर, विप्रवर कालकवृक्षीयके पुनः आ जानेसे राज्यपरिवारमें नङ्गलपाठ होने लगा। पुरोहितके वंशमें भी हर्ष मनाया जाने लगा। कालकवृक्षीय मुनिने अपनी बुद्धिके चलते कौसलनरेशको पृथ्वीका एकछत्र सम्राट् बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई उत्तम यज्ञ किये। कौसल्यराजने भी पुरोहितके हितकारी वचन सुने और उनको आज्ञाके अनुसार सब कार्य किया, इससे उन्होंने समस्त भूमण्डलपर विजय प्राप्त कर ली।

साम्राज्य आदिके लक्षण तथा गुप्त सलाह सुननेके अधिकारी

गुप्तिष्ठितने पूछा—मितामह ! राजाके साम्राज्य, सहायक, मुहूर्त्, परिच्छद (सैनानति आदि) तथा मन्त्री कैसे होने चाहिये ?

मीमन्सीने कहा—देवा ! जो लज्जावान्, जितेन्द्रिय, कल्पवादी, सरल और किसी विषयपर अच्छी तरह बोल सकनेवाले हों, उन्हेंको तुम साम्राज्य बनाना। मन्त्री, गुरुवार, विद्वान् ब्राह्मण, अधिक संतोषी तथा कार्यमें विशेष उत्साह दिखानेवाले मनुष्योंको ही सहायक बनानेकी इच्छा करना। जो कुलान हो, अपनी शक्तिको छिपाता न हो, सुखमें, दुःखमें, वीनारोमें अथवा घायल होनेपर भी कभी साथ न छोड़ता हो, वही मुहूर्त् बनाने योग्य है। जो अपने ही देशमें और अच्छे कुलमें उत्पन्न हुए हों, बुद्धिमान्, स्ववान्, बहून्, निर्भय तथा प्रेम रखनेवाले हों, वे ही मुहूर्त् परिच्छद (सैनानति आदि) होनेयोग्य हैं। अच्छे कुलमें

उत्पन्न, शीलवान्, इशारे समझनेवाले, दयालु, देश-कालके विधानको समझनेवाले और स्वामीका हित चाहनेवाले मनुष्योंको तुम सब कार्यमें अपने मन्त्री बनाना; क्योंकि विद्वान्, सत्यवादी, सदाचारी, उत्तम व्रतका पालन करनेवाले और सदा साथ देनेवाले महान् पुरुष तुम्हें कभी त्याग नहीं सकते। जो काननासे, भयसे, क्रोधसे अथवा लोभसे भी धर्मका त्याग न कर सके, जो अभिमानरहित, सत्यवादी, शान्त, मनको जीतनेवाला, दूसरोंसे सम्मानित तथा प्रत्येक अवस्थामें सदा-बुद्धि हुआ मनुष्य हो, उसीको तुम्हें गुप्त सलाहकार बनाना चाहिये। जिनके साथ कोई-न-कोई सम्बन्ध हो, जो अच्छे कुलमें उत्पन्न, विगवासपात्र, स्वदेशीय, लोभ दिखाकर फोड़े न जा सकनेवाले तथा व्यभिचार-दोषसे रहित हों, जिनकी जाति उत्तम हो, जो वैदिक पथपर चलते और पुस्त-वर-युक्तसे राज्यकी नीकरी करते आ रहे हों तथा

[नित्यवर्ष]

में धर्मदंडका नाम न हो, ऐसे लोगोंको ही मन्त्री बनाना चाहिये। जिनमें विनययुक्त बुद्धि, सुन्दर, स्वभाव, तेज, रता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम और स्थिरता हो, उनके इन गुणोंकी परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभारको सँभालनेमें प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हों तो उन्हें मन्त्री बनाना चाहिये। ऐसे पाँच मन्त्रियोंकी आवश्यकता होती है। वे सबके-सब बोलनेमें कुशल, शूर और प्रत्येक बातको ठीक-ठीक समझनेमें निपुण होने चाहिये। जो मूल्य और दुर्बुद्धि है, उसको सिर्फ काम हाथमें ले लेनेसे ही उसके विशेष परिणामका ज्ञान नहीं होता। जिस मन्त्रीका राजाके प्रति अनुराग न हो, उसका विश्वास करना ठीक नहीं; इसलिये उसके समक्ष गुप्त विचारोंको नहीं प्रकट करना चाहिये। वह कपटी मन्त्री यदि गुप्त विचारोंको जान ले तो अन्य मन्त्रियोंको मिलाकर राजाका इस प्रकार नाश कर देता है, जैसे आग हवासे भरे हुए छेदोंमें घुसकर समूचे वृक्षको भस्म कर डालती है। जिसका स्वभाव सत्त्व नहीं है, वह अनुभवत हो, बुद्धिमान् हो तथा अन्य सारे गुणोंसे युक्त हो तो भी गुप्त सलाह मुननेका अधिकारी नहीं है।

जिसका शत्रुओंके साथ सम्बन्ध हो तथा नगरके मनुष्योंके प्रति जिसकी सम्मान-बुद्धि न हो, उसको सुहृद् नहीं मानना चाहिये; यह तो शत्रु ही है, उसे गुप्त सलाह मुननेका अधिकार नहीं है। मूल्य, अपवित्र, जड, शत्रुसेवक, बातें बनानेवाला, क्रोधी और लोभी मनुष्य भी शत्रु ही है; उसपर गुप्त मन्त्र नहीं प्रकट करना चाहिये। कोई सम्मानका उपपर गुप्त मन्त्र नहीं प्रकट करना चाहिये। यदि नया पात्र, बहुत बड़ा विद्वान् और प्रेमी ही बयो न हो, यदि नया आया हुआ है, तो वह भी गुप्त मन्त्रणा मुननेका अधिकारी नहीं है। जिसका पिता अपने अधर्माचरणके द्वारा पहले अपमानपूर्वक निकाला गया हो और उसका वह पुत्र सम्मानपूर्वक पिताके पदपर नियुक्त कर लिया गया हो, उसे भी गुप्त सलाह नहीं बतानी चाहिये।

जिसकी बुद्धि शुद्ध और धारणाशक्ति प्रबल हो, जो स्वदेशमें ही उत्पन्न, शुद्ध आचरणवाला और विद्वान् हो तथा सब तरहके कामोंमें परीक्षा करनेपर ईमानदार साबित हुआ हो, वह गुप्त सलाह मुननेका अधिकारी है। जो ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न, अपने पक्ष तथा शत्रुपक्षके लोगोंकी प्रकृतिकी परखनेवाला तथा राजाका अपना अभिन्न सुहृद् हो, वह भी गुप्त सलाह मुन सकता है। जो सत्यवादी, शीलवान्, गम्भीर, लज्जावान् और कोमल स्वभाववाला हो तथा पुरत-दर-पुरतसे राजाकी सेवामें रहता आया हो, वह भी मन्त्रणा

मुननेका अधिकारी है। संतोषी, सत्युर्ध्वोंद्वारा सम्मानित, सत्यवादी, चतुर, पापसे घृणा करनेवाला, राजकीय मन्त्रणाको समझनेवाला, समयकी पहचान रखनेवाला और शूबीर मनुष्य भी सलाह मुननेयोग्य माना गया है। जो राजा चिरकालतक दण्ड धारण किये रहनेकी इच्छा रखता हो, उसे अपनी गुप्त सलाह उस आदमीको बतानी चाहिये, जो सारे जातुकी समझा-बुझाकर अपने बरामें कर लेनेकी शक्ति रखता हो। नगर और देशके लोग जिसपर धर्मतः विश्वास करते हैं, जो नीतिकी विद्वान् हो, वह गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी है। इसलिये जो उपयुक्त सभी गुणोंसे सम्पन्न और लोगोंकी प्रकृतिकी परखनेवाले हों, ऐसे पुरुषोंको ही सम्मानपूर्वक मन्त्रीके पदपर नियुक्त करना चाहिये। मन्त्री कम-से-कम तीन होने चाहिये। मन्त्रियोंके को चाहिये कि राजा, अमात्य, सेनाध्यक्ष आदि प्रकृतियोंके तथा शत्रुओंके भी छिद्रोंपर निगाह रखें; क्योंकि राजाके राज्यकी जड़ है मन्त्रियोंकी नेत्र सलाह। उसीके आधारपर राज्यका अल्पव्यय होता है। जैसे कछुआ अपने सब अङ्गोंको समेटे रहता है, उसी तरह राजाकी भी अपने गुप्त विचारोंको छिपाये रखना चाहिये। जो मन्त्री राज्यके गुप्त मन्त्रको छिपाये रखते हैं, वे बुद्धिमान् हैं। मन्त्री ही राजाका कवच है, सेना आदि तो शरीरमात्र हैं।

राजदूत राज्यकी जड़ है और गुप्त मन्त्रणा उसका बल है। यदि मन्त्री मद, क्रोध, मान और ईर्ष्या त्यागकर राजाका अनुसरण करते हैं, तो वे सुखी होते हैं। जो पाँच प्रकारके छलसे रहित हों, ऐसे मन्त्रियोंके साथ गुप्त परामर्श करना चाहिये। राजा पहले तीनों मन्त्रियोंकी पृथक् पृथक् सलाह जानकर उसपर विचार करे; फिर अपना जो निश्चय हो उसको और दूसरोंके निश्चयको धर्म, अर्थ तथा कामके तत्त्वकी समझनेवाले पुरोहित ब्राह्मणसे निवेदन करके उसकी राय पूछे। उस समय वह जो कुछ निगंठ दे, उत्तर यदि सब लोग एकमत हो जायें तो उस विचारको बर्नहने परिरणत करे। मन्त्रत विद्वान् कहते हैं—सदा इतो तत्पर मन्त्रणा करे और जो विचार प्रजाके अपने अन्तर्गत बनानेमें अधिक प्रबल जान पड़े, उसे बर्नने से। गुप्त विचार किया जाता हो, बर्न न उनके अन्तर्गत बने, कुबड़े, दुबले, लंगड़े, बड़े, बूढ़े, स्त्री और रोगी आने पावें। महत्के अन्तर्गत बर्नकर उन्नत होने एवं सुते हुए मर्दानके बर्न हुए बर्नकर उन्नत होने का गुप्त विचार करना चाहिये।

राजाकी व्यावहारिक नीति और उसके निवासयोग्य नगरका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! राजा किस तरह प्रजाका पालन करे, जिससे वह धर्मानुसार लोगोंका प्रेम और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सके ?

भीष्मजीने कहा—जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर निष्कपट व्यवहारसे प्रजाके पालनमें लगा रहता है, वह धर्म और कीर्ति प्राप्त करता है तथा उसके लोक-परलोक दोनों सुधर जाते हैं ।

युधिष्ठिरने पूछा—महाप्राज्ञ ! यह तो बताइये, राजाके व्यवहार कैसे हों और वह किन लोगोंको साथ लेकर व्यवहार करे ? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपने पहले जिन गुणोंका वर्णन किया है, वे किसी भी एक पुरुषमें नहीं मिल सकते ।

भीष्मजीने कहा—बेटा ! तुम्हारा कहना ठीक है । वास्तवमें उन सभी सदगुणोंसे युक्त कोई एक पुरुष मिलना कठिन है । इसलिये राजा किस तरह और कैसे लोगोंका मन्त्रिमण्डल बनाये, इस बातको मैं संक्षेपसे बताता हूँ । जो वेदविद्याके विद्वान्, स्नातक, बाहर-भीतरसे शुद्ध एवं निर्भीक हों, ऐसे चार ब्राह्मण, शरीरसे बलवान् तथा शस्त्रविद्याको जाननेवाले आठ क्षत्रिय, धन-धान्यसे सम्पन्न इक्कीस वैश्य, विनयशील तथा पवित्र आचार-विचारवाले तीन शूद्र, आठ गुणोंसे युक्त और पुराण-विद्याको जाननेवाला एक सूत जातिका मनुष्य—इन सब लोगोंका एक मन्त्रिमण्डल बनाये । इस मण्डलके प्रत्येक सदस्यकी आयु पचास वर्षके लगभग होनी चाहिये; सारा मण्डल निर्भीक, किसीकी निन्दा न करनेवाला, अधिकारके अनुसार धृति-स्मृतियोंका विद्वान्, विनयशील, समदर्शी, वादी-प्रतिवादीके मामलोंका निपटारा करनेमें समर्थ, लोभरहित तथा सात प्रकारके

१. सेवा करनेको सदा तैयार रहना, कही हुई बात ध्यानसे सुनना, उसे ठीक-ठीक समझना, याद रखना, किस कार्यका कैसा परिणाम होगा—इसपर तर्क करना, यदि अमुक प्रकारसे कार्य सिद्ध न हुआ तब क्या करना चाहिये ?—इस तरह वितर्क करना शिल्प और व्यवहारकी जानकारी रखना और तत्त्वका बोध होना—ये आठ गुण पौराणिक सूतमें होने चाहिये ।

२. शिकार, जूआ, परस्त्री-प्रसंग और मदिरापान—ये चार कामजनित दोष और मारना, गाली बकना तथा दूसरेकी चीज खराब कर देना—ये तीन क्रोध-जनित दोष मिलकर सात दुर्व्यसव माने गये हैं ।

दुर्व्यसनोंसे दूर रहनेवाला होता चाहिये । इनमेंसे आठ प्रधान मन्त्रियोंका चुनाव करके राजा उनके साथ गुप्त सलाह-मशविरा किया करे । इन सबकी रायसे जो बात निश्चित हो, उसको देशमें प्रचारित करे और प्रत्येक राष्ट्रवासीको उसका ज्ञान करा दे ।

युधिष्ठिर ! इसी व्यवहारसे तुम्हें सदा प्रजावर्गकी देख-रेख रखनी चाहिये । जो राजा प्रजाके साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है, धर्मतः उसका पालन नहीं करता, उसके हृदयमें भय बना रहता है तथा उसका परलोक भी बिगड़ जाता है । राजाका मन्त्री हो या राजकुमार न्याय ही जिसकी जड़ है, उस न्यायासनपर बैठकर यदि वह धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा नहीं करता तथा राज्यके दूसरे अधिकारी भी अगर प्रजावर्गके साथ अनुचित बर्ताव करते हैं तो राजाके साथ ही उन्हें भी नरकमें गिरना पड़ता है । जब बलवानोंके अत्याचारसे पीड़ित दीन-दुखी और दुर्बल मनुष्य आतं पुकार मचाते हुए शरणमें आवें, उस समय राजाको ही उन अनाथोंका नाथ (रक्षक) होना चाहिये । पापियोंको उनके अपराधके अनुसार दण्ड देना चाहिये । उनमेंसे जो धनी हों, उनको तो सम्पत्तिसे वञ्चित कर देना चाहिये; और जो गरीब हों, उन्हें जेलखानेमें कैद करना चाहिये और जो बहुत दृष्ट हों, उन्हें पीटकर राहपर लाना चाहिये ।

जो राजाका खून करनेकी कोशिश करे, घरमें आग लगावे, चोरी करे अथवा वर्णसंकर संतान पैदा करे—ऐसे मनुष्यको अनेकों प्रकारका कठोर दण्ड देना चाहिये । यदि राजा राग-द्वेषसे रहित एवं समत्वभावसे युक्त है और अपराधके अनुरूप उचित रीतिसे प्रजाको दण्ड देता है, तो इससे उसको पाप नहीं लगता; बल्कि उसके द्वारा सनातन-धर्मका पालन होता है । परंतु जो मूर्ख मनमाना दण्ड देता है, वह इस लोकमें तो कलंकित होता ही है; मरनेके बाद उसे नरकमें भी जाना पड़ता है । दूसरोंके शिकायत करने मात्रसे ही किसीको दण्ड न दे, अपराधका भलीभांति निश्चय करके ही दण्ड दे अथवा रिहाई करे । राजा किसी भी आपत्तिमें क्यों न हो, दूतका वध न करे । दूतकी हत्या करनेवाला राजा अपने मन्त्रियोंके साथ नरकमें पड़ता है । दूतमें सात गुण होने चाहिये—वह अच्छे कुलमें उत्पन्न हो, उसका कुटुम्ब बड़ा हो, उसमें बोलनेकी शक्ति हो, वह फार्यकुशल, प्रिय बोलनेवाला, सत्यवादी तथा स्मरण-

शक्तिसे सम्पन्न हो। राजाके प्रतीहारी (द्वारपाल) तथा सिंहासनासक्तों भी ये ही गुण होने चाहिये। मन्त्री संधि-विग्रहका अवसर जाननेवाला, धर्मशास्त्रका तत्त्वतः, बुद्धिमान्, धीर, सज्जावान्, रहस्यको गुप्त रखनेवाला, कुलीन, साहसी तथा शुद्ध हृदयवाला हो तो उत्तम है। सेनापतियों भी ऐसे ही गुण होने चाहिये। इनके सिवा, वह मोर्चाबंदी, यन्त्र चलाना और नाना प्रकारके दूसरे अस्त्रोंका प्रयोग करना ठीक-ठीक जाने, पराक्रमी हो, सदा, गर्मी, आंधी और वर्षाके कष्टको धैर्यपूर्वक सहै तथा शत्रुओंको कमजोरीको समझने-वाला हो। राजा दूसरोंका अपने ऊपर विश्वास पैदा करे, पर स्वयं किसीका भी विश्वास न करे। उसके लिये अपने पुत्रोपर भी पूरा विश्वास करना अच्छा नहीं। यह नीति-शास्त्रका तत्त्व है, जो मैंने तुम्हें बता दिया। किसीपर भी पूरा विश्वास न करना राजाओंका परम गोपनीय गुण है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! राजा स्वयं कैसे नगरमें निवास करे, पहलेसे बनी हुई राजधानीमें या नया नगर बसाकर रहे ?

भीष्मजीने कहा—जहाँ सब प्रकारकी सम्पत्ति प्रचुर मात्रामें भरी हुई हो, ऐसे छः प्रकारके दुर्गों (किलों) का आश्रय लेकर नये नगर बसाने चाहिये। पहला है धन्वदुर्ग। जिसके चारों ओर दूरतक निर्जल प्रदेश (रेगिस्तान) हो, उस किलेको धन्वदुर्ग कहते हैं। दूसरा महोदुर्ग (समतल जमीनके अंदर बना हुआ किला या तहखाना) है, तीसरा गिरिदुर्ग (पहाड़की चोटीपर बना हुआ किला), चौथा मनुष्यदुर्ग (फौजी किला), पांचवां मूर्त्तिकादुर्ग (रेतके ऊंचे टीलोंका घेरा) और छठा वनदुर्ग (कटवासी आदिके घने जंगलका घेरा) है। जिस नगरमें इनमेंसे कोई-नकोई दुर्ग हो, जहाँ अन्न और अस्त्र-शस्त्रोंकी अधिकता हो, जिसके चारों ओर मजबूत दीवार (चहारदीवारी) और गहरी तथा चौड़ी खाई बनी हो, जहाँ हाथी, घोड़े और रथोंकी कमी न हो, विद्वान् और कारीगर बसे हों, आवश्यक वस्तुओंसे भरे कई भंडार हों, धार्मिक तथा कार्यदक्ष मनुष्योंका निवास हो, चौराहे और बाजार जिसको शोभा बढ़ा रहे हों, जो व्यापारके लिये प्रसिद्ध स्थान हो, जहाँ पूर्ण शान्ति हो, कहौंसे भय आनेकी सम्भावना न हो, जिसमें बड़े-बड़े शूचीर और धनाढ्य रहते हों, वैद-भन्नोंको ध्वनि गूँजती रहती हो तथा जहाँ सदा ही सामाजिक उत्सव और देवपूजनका क्रम चलता रहता हो—ऐसे नगरके भीतर अपने चारों ओर रहनेवाले मन्त्रियों तथा सेनाके साथ राजाको स्वयं निवास करना चाहिये।

राजाका कर्तव्य है कि वह उस नगरके कजाने, सेना तथा व्यापारको बढ़ावे, मित्रोंको संख्या भी अधिक करे। नगर तथा प्रान्तके सब प्रकारके दोषोंको दूर करे। अन्न-भंडार तथा अस्त्र-शस्त्रोंके भंडारको यत्नपूर्वक बढ़ाता रहे। सब प्रकारकी वस्तुओंके संग्रहालयोंको भी बढ़ावे, भरीन तथा अस्त्र-शस्त्रोंके कारखानोंकी उन्नति करे। काठ, लोहा, धानकी भूसी, कोयला, बाँस, तेल-घी, शहद, औषध, सन, काराघन, धान्य, अस्त्र-शस्त्र, बाण, डाल, बेंत तथा मूँज और बल्यजकी रस्ती आदि सामग्रियोंका संग्रह रखे। पौंसरों, कुओं, अधिक पानीवाले जलस्रायों तथा दूधवाले बूझोंकी सदा रक्षा करे। आचार्य, ऋत्विज, पुरोहित, महान् धनुर्धर, खवाई (कारीगर), ज्योतिषी और बंधोका यत्नपूर्वक सत्कार करे। विद्वान्, बुद्धिमान्, जितेन्द्रिय, कार्यकुशल, शूर, बहूज तथा साहसी मनुष्योंको ही सब कामोंमें लगावे। राजाको यत्नपूर्वक धार्मिकोंका सम्मान करना और पापियोंको दण्ड देना चाहिये। सभी वर्णोंको अपने-अपने कर्मोंमें लगाता चाहिये। जाभूसोके द्वारा नगर और देशके बाहरी तथा भीतरी समाचारोंको अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार काम करना चाहिये। जाभूसोसे मिलने, गुप्त परामर्श करने, लज्जानेकी जाँच-पड़ताल करने तथा विशेषतः अपराधियोंको दण्ड देनेका कार्य राजाको अपने हाथमें रखना चाहिये; क्योंकि इन्होंपर राज्यका अस्तित्व कायम है। गुप्तचररूपी नेत्रोंके द्वारा सदा इस बातपर दृष्टि रखे कि मेरे शत्रु, मित्र अथवा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रान्तमें कब क्या करना चाहते हैं। उनकी चेष्टाएँ जान लेनेके परचात् सावधानीके साथ उनका प्रतिकार करे। भक्तोंका आदर करे और द्वेष रखनेवालोंको कंदमें डाल दे।

नित्य नाना प्रकारके दान करे, किसीको कष्ट न पहुँचाते हुए दान दे। प्रजाजनोंकी रक्षा करे और कोई भी काम ऐसा न होने दे, जिससे धर्ममें बाधा आती हो। दीन, अनाथ, युद्ध तथा विधवाओंकी जीविकाका प्रबन्ध करे, उनके भोग-क्षेमका लक्षण रखे। अपने राज्यमें जो तपस्वी हों, उन्हें अपने शरीरसम्बन्धी, कार्यसम्बन्धी तथा राष्ट्रसम्बन्धी समाचार बताया करे और उनके सामने सदा विनोतभावसे रहे। जिसने अपने सम्पूर्ण स्वार्थोंको त्याग दिया है, ऐसे कुलीन एवं बहूत तपस्वीका उक्त शय्या, आसन और भोजन देकर सत्कार करना चाहिये। कंसों भी आपत्तिका समय बर्षों न हो, राजाको तपस्वीपर विश्वास करना चाहिये; क्योंकि उनपर चौरतक विश्वास करते हैं। कम-से-कम चार तपस्वीयोंको अपना सहायक अवश्य बनाये रहना

चाहिये। उनमेंसे एक अपने राज्यमें, एक शत्रुके राज्यमें, एक जंगलमें और एक अपने सामंतोंके नगरोंमें रहनेवाला होना चाहिये। उन सबको आदर और सत्कारके साथ आवश्यक वस्तुएँ देते रहनी चाहिये। अपने राज्यके तपस्वियोंकी ही भाँति शत्रुके राज्यमें रहनेवाले तपस्वियोंका

भी सम्मान करना चाहिये; क्योंकि किसी आपत्तिके समय जब राजा शरणार्थी होकर आता है तो वे उसे इच्छानुसार आश्रय देते हैं। युधिष्ठिर! तुम्हारे पुछनेके अनुसार राजाको जैसे नगरमें निवास करना चाहिये, उसका लक्षण मैंने संक्षेपसे बतला दिया है।

राष्ट्रकी रक्षा तथा वृद्धिके उपाय और प्रजासे कर लेनेका ढंग

युधिष्ठिरने पूछा—भरतश्रेष्ठ! अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिये?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! एक गाँवका, दस गाँवोंका, बीस गाँवोंका, सौ गाँवोंका तथा हजार गाँवोंका एक-एक अधिपति बनाना चाहिये। गाँवके स्वामीका यह कर्तव्य हो कि वह गाँववालोंके मामलोंका तथा उस गाँवमें जो अपराध होते हों, उन सबका पता लगावे और उनकी पूरी रिपोर्ट दस गाँवोंके मालिकके पास भेजे। इसी तरह दस गाँवोंवाला बीस गाँववालेके पास, बीस गाँवोंवाला सौ गाँववालेके पास तथा सौ गाँवोंवाला हजार गाँववाले अधिकांरिके पास अपने गाँवोंकी रिपोर्ट भेजा करे। (फिर हजार गाँवोंका मालिक स्वयं राजाके यहाँ जाकर अपने पास आयी हुई रिपोर्ट पेश करे।) गाँवोंमें जो उपज हो, वह गाँवके मालिकोंके ही अधिकारमें रहनी चाहिये। वे लोग वेतनके रूपमें उसमेंसे नियत अंशका उपभोग कर सकते हैं। अपनी आमदनीसे वे दस गाँवके अधिपतियोंको कर दिया करें। दस गाँवके अधिकारियोंको बीस गाँवके मालिकोंके लिये कर देना चाहिये। वे लोग उसीसे अपना भरण-पोषण करें। जो सौ गाँवोंका मालिक हो, उसके खर्चके लिये एक गाँवकी आमदनी देनी चाहिये; वह गाँव बहुत बड़ी बस्तीवाला और सम्पन्न होना चाहिये तथा उसका इंतजाम कई मालिकोंकी सुपुदंगीमें रहना चाहिये। (यदि सिर्फ उसीके अधीन कर दिया जाय तो लोभवश उसके द्वारा प्रजाके सत्ताये जानेका भय है।) इसी तरह एक हजार गाँवोंके मालिकके लिये एक कसबेकी आमदनी देनी चाहिये। इन मालिकोंके जिम्मे युद्धसम्बन्धी तथा गाँवोंके प्रबन्धसम्बन्धी जो कार्य सौंपे गये हों, उनकी निगरानीके लिये एक मन्त्री (गवर्नर) नियुक्त करना चाहिये, जो धर्मको जाननेवाला और आलस्यरहित हो। अथवा प्रत्येक बड़े-बड़े नगर (जिले) में एक-एक अध्यक्ष (कलक्टर) नियुक्त

उनके लिये कोई अच्छी व्यवस्था सोचे। वह अपने-अपने मण्डलके सभी ग्रामाध्यक्षोंके यहाँ जा-जाकर उनके कार्योंकी जाँच-पड़ताल करता रहे। प्रत्येक नगराध्यक्षके पास गुप्तचर होना चाहिये। जो प्रजाके साथ होनेवाले ग्रामाध्यक्षोंके बर्तावोंकी सूचना दिया करे। खुफिया जाँचसे जो लोग प्रजाको चूसनेवाले, पापी, दूसरोंके धन हड़पनेवाले और शठ प्रतीत हों, ऐसे अधिकारियोंसे वह प्रजाकी रक्षा करे।

राजाकी मालकी खरीद-विक्री, रास्तेकी दूरी, उसके भंगानेका खर्च-बर्च और उसकी लागत तथा बचतका विचार करके ही व्यापारियोंपर टैक्स लगाना चाहिये। इसी तरह मालकी तैयारी, उसकी खपत तथा कारीगरोंकी मध्यम-उत्तम आदि श्रेणियोंका विचार रखते हुए शिल्प एवं शिल्पकारोंपर कर लगाना चाहिये। इतना अधिक टैक्स न लगावे कि देनेवालोंको विशेष कष्ट हो, उनका काम और मुनाफा देखकर ही सब कुछ करे। अधिक लोभके कारण अपने आधारभूत राज्य तथा प्रजाओंके जीवनभूत खेती-बारी आदिको चौपट न कर डाले। तृष्णाको रोककर प्रजाका प्रेम प्राप्त करे; क्योंकि अधिक चूसनेवाले राजासे सारी प्रजा द्वेष करने लगती है। ऐसी दशामें उसका कल्याण कैसे हो सकता है? जिससे प्रजावर्गका प्रेम हट जाता है, उसे कोई फायदा नहीं पहुँचता। वृद्धिमान् राजाको चाहिये कि वह बछड़ेकी तरह राष्ट्रसे लाभ उठावे। जैसे बछड़ा अधिक कालतक पूरा दूध पीकर बलवान् होनेके बाद ही भारी भार उठानेमें समर्थ होता है और गौको अधिक दुह लेनेसे दूध न मिलनेके कारण जब वह कमजोर हो जाता है, तो काम नहीं दे पाता; इसी प्रकार राज्यका भी अधिक दोहन करनेसे उसकी प्रजा दरिद्र हो जाती है, फिर उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। जो राजा अपने राष्ट्रपर अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है और उसकी उचित आमदनीसे अपनी जीविका चलाता है, उसे बहुत लाभ होता है। (अपने यहाँ तैयार हुए मालकी बेचनेके लिये नगर श्रेणियोंके जो व्याप

समय काम आनेके लिये अपने देशमें नियतिका धन बढ़ाना चाहिये और अपने राष्ट्रको घरमें रखना हुआ खजाना समझना चाहिये ।

जब कोई संकट आवे और उस समय धनकी आवश्यकता हो तो देशकी प्रजाको राष्ट्रपर आनेवाले भयका ज्ञान कराना चाहिये । उससे कहना चाहिये—'सज्जनों ! अपने देशपर बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुँची है, शत्रुओंके आक्रमणका भारी खतरा है, मेरे दुरमन बहुतेसे सुदूरोंको साथ लेकर इस देशको संकटमें डालना चाहते हैं । इस घोर आपत्ति थीर दाय्य भयके समय में आपलोगोंकी रक्षाके लिये धन चाहता हूँ । जब संकट टल जायगा, उस समय आपका सारा धन वापस कर दूँगा । यदि शत्रु आ गये तो आपका सारा धन जबरबस्ती लूट ले जायेंगे और फिर वापस नहीं देंगे । इसके सिवा उनके आनेसे आपके बाल-बच्चोंकी जिंदगी भी खतरेमें पड़ सकती है । बाल-बच्चोंकी ही रक्षाके लिये धनका संग्रह किया जाता है । यदि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हुई तो मैं इन सबकी रक्षा करके आपको आनन्दित करूँगा । अपनी शक्तिपर राष्ट्रकी और आपलोगोंको कष्ट न होने दूँगा । जैसे बलवान् बल समय पड़नेपर भारी धोम उठाता है, उसी प्रकार इस विपत्तिके समय आपलोगोंको भी कुछ भार सहना ही चाहिये ।'

समयकी गति-विधिको जाननेवाले राजाको इसी प्रकार मधुर वाणीसे समझा-बुझाकर प्रजासे धन लेना चाहिये । 'नगरकी रक्षाके लिये चहारदीवारी बनवानी है, सेवकोंका भरण-भोग्य करना है, युद्धके भयको टालना है तथा सबके योग-क्षेमकी चिन्ता करनी है' इन सब बातोंकी आवश्यकता बिलाकर ध्यापारियोंपर कर लगाना चाहिये । जो राजा ध्यापारियोंके हानि-नाशकी ओरसे त्वापरवाह होकर उन्हीं सतता है, वे राज्यको छोड़कर चले जाते हैं, जंगलोंमें रहने लगते हैं, इसलिये उनके साथ कठोरताका नहीं, कोमलताका बर्ताव करना चाहिये । ध्यापार करनेवालोंको सान्त्वना दे, उनकी रक्षा करे, उन्हें धनको सहायता दे, उनकी स्थितिको कायम रखनेका प्रयत्न करे तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएँ देकर सदा उनका प्रिय कार्य करे । ध्यापारियोंको उनके परिश्रमका फल सदा देते रहना चाहिये; क्योंकि वे ही राष्ट्रके यागिज्य-व्यवसाय तथा खेती-बारीकी उप्रति करते हैं । अतः बुद्धिमान् राजा सदा उनपर प्रेम रखे । सावधानी रखकर उनके साथ ब्यावृत्ताका बर्ताव करे । उनपर हलका टैक्स लगावे और ऐसी प्रबन्ध करे, जिससे वे कुशलपूर्वक देशमें सब जगह बिचरण कर सकें । युधिष्ठिर ! राजाके लिये इससे बढ़कर हितकर काम दूसरा नहीं है ।

युधिष्ठिरने पूछा—दावाजो ! राजा किसी संकटमें न होनेपर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरहका उपाय काममें लाना चाहिये ?

भीष्मजीने कहा—धर्मको इच्छा रखतेवाले राजाको देश और कालकी परिस्थितिका ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बलके अनुसार प्रजाके हितसाधनमें संतान रहना और सदा उसका पालन करते रहना चाहिये । जिसमें प्रजाको और अपनी भी मलाई जान पड़े, उसी कार्यका वह सारे राष्ट्रमें प्रचार करे । जैसे धीरा धीरे-धीरे फूलका रस लेता है, उसके वृक्षको काटता नहीं, जैसे मनुष्य बछड़ेको कष्ट न देकर धीरे-धीरे गाधका दूध दुहता है, उसके पनोंको कुचल नहीं डालता तथा जैसे जोंक धीरे-धीरे ही शरीरका रक्त चूसती है, उसी प्रकार राजा भी कोमलताके साथ ही राष्ट्रसे कर घमूल करे । जैसे बाघिन अपने बच्चोंको दाँतसे पकड़कर इधर-उधर ले जाती है, परंतु उसे पीडा नहीं पहुँचने देती, इसी तरह कोमल उपायोसे ही राजा अपने राष्ट्रका दोहन करे—धीरे-धीरे धन संचित करे । उचित समयपर योग्य कार्यके लिये प्रजाको समझा-बुझाकर ही शिरो पर वसूल करना चाहिये, कुतमयमें और अनुचित कार्यके लिये नहीं । शराबखाना खोलनेवाले, बेश्याएँ, कुट्टनियॉ, बेश्याओंके दलाल, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करनेवाले और भी जितने लोग हैं, वे समूचे राष्ट्रको रसातलमें भेजनेवाले होते हैं, उन सबको दण्ड देकर बचाये रखना चाहिये; अन्यथा राज्यमें रहकर वे भले लोगोंको तबाह करते रहते हैं । मनुजोंने पहलेहीसे समस्त प्राणियोंके लिये एक नियम बना दिया है कि आपत्तिकालको छोड़कर बाकी समयमें कोई किसीसे कुछ भी न मांगे । यदि ऐसी व्यवस्था न होती, तो सब लोग भीख माँगकर ही निर्वाह करते, कोई भी काममें मन न लगाता—ऐसी दशागमें सारा संसार नष्ट हो जाता । राजा ही सबको नियमके भीतर रखनेमें समर्थ होता है । जो राजा प्रजाको मर्यादाके भीतर नहीं रखता उसे प्रजावर्गके पापका चौपाई भाग खुद भोगना पड़ता है । यदि सबको मर्यादाके भीतर रखे तो वह प्रजाके चतुर्पाश पुष्पका भागी होता है; इसलिये राजाको उचित है कि वह सब प्राणियोंको दण्ड देकर उन्हें सदा नियन्त्रणमें रखे ।

उपर बताया हुआ मदिरासय तथा बेश्यासय आदि स्थानोंपर रोक लगा देने चाहिये; क्योंकि इनके कारण मनुष्यमें आसक्ति बढ़ती है । आसक्तिके बशीभूत हुआ मनुष्य मांस खाता, मदिरा पीता और परधन तथा परस्त्रीका अपहरण करता है । स्वयं तो करता ही है, दूसरोंको भी यही सब करनेका उपदेश देता है । जिन लोगोंके पास कुछ

चाहिये। उनमेंसे एक अपने राज्यमें, एक शत्रुके राज्यमें, एक जंगलमें और एक अपने सामंतोंके नगरोंमें रहनेवाला होना चाहिये। उन सबको आदर और सत्कारके साथ आवश्यक वस्तुएँ देते रहनी चाहिये। अपने राज्यके तपस्वियोंकी ही भाँति शत्रुके राज्यमें रहनेवाले तपस्वियोंका

भी सम्मान करना चाहिये; क्योंकि किसी आपत्तिके समय जब राजा शरणार्थी होकर आता है तो वे उसे इच्छानुसार आश्रय देते हैं। युधिष्ठिर! तुम्हारे पृष्ठनेके अनुसार राजाको जैसे नगरमें निवास करना चाहिये, उसका लक्षण मैंने संक्षेपसे बता दिया है।

राष्ट्रकी रक्षा तथा वृद्धिके उपाय और प्रजासे कर लेनेका ढंग

युधिष्ठिरने पूछा—भरतश्रेष्ठ! अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिये?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! एक गाँवका, दस गाँवोंका, बीस गाँवोंका, सौ गाँवोंका तथा हजार गाँवोंका एक-एक अधिपति बनाना चाहिये। गाँवके स्वामीका यह कर्तव्य हो कि वह गाँववालोंके मामलोंका तथा उस गाँवमें जो अपराध होते हों, उन सबका पता लगावे और उनकी पूरी रिपोर्ट दस गाँवोंके मालिकके पास भेजे। इसी तरह दस गाँवोंवाला बीस गाँववालेके पास, बीस गाँवोंवाला सौ गाँववालेके पास तथा सौ गाँवोंवाला हजार गाँववाले अधिकारीके पास अपने गाँवोंकी रिपोर्ट भेजा करे। (फिर हजार गाँवोंका मालिक स्वयं राजाके यहाँ जाकर अपने पास आयी हुई रिपोर्ट पेश करे।) गाँवोंमें जो उपज हो, वह गाँवके मालिकोंके ही अधिकारमें रहनी चाहिये। वे लोग वेतनके रूपमें उसमेंसे नियत अंशका उपभोग कर सकते हैं। अपनी आमदनीसे वे दस गाँवके अधिपतियोंको कर दिया करें। दस गाँवके अधिकारियोंको बीस गाँवके मालिकोंके लिये कर देना चाहिये। वे लोग उसीसे अपना भरण-पोषण करें। जो सौ गाँवोंका मालिक हो, उसके खर्चके लिये एक गाँवकी आमदनी देनी चाहिये; वह गाँव बहुत बड़ी बस्तीवाला और सम्पन्न होना चाहिये तथा उसका इंतजाम कई मालिकोंकी सुपुर्गामीमें रहना चाहिये। (यदि सिर्फ उसीके अधीन कर दिया जाय तो लोभवश उसके द्वारा प्रजाके सत्ताये जानेका भय है।) इसी तरह एक हजार गाँवोंके मालिकके लिये एक कसबेकी आमदनी देनी चाहिये। इन मालिकोंके जिम्मे युद्धसम्बन्धी तथा गाँवोंके प्रबन्धसम्बन्धी जो कार्य सौंपे गये हों, उनकी निगरानीके लिये एक मन्त्री (गवर्नर) नियुक्त करना चाहिये, जो धर्मको जाननेवाला और आलस्यरहित हो। अथवा प्रत्येक बड़े-बड़े नगर (जिले) में एक-एक अध्यक्ष (कलक्टर) नियुक्त करना चाहिये, जो वहाँके सभी कामोंकी देख-भाल करे और

उनके लिये कोई अच्छी व्यवस्था सोचे। वह अपने-अपने मण्डलके सभी ग्रामाध्यक्षोंके यहाँ जा-जाकर उनके कार्योंकी जाँच-पड़ताल करता रहे। प्रत्येक नगराध्यक्षके पास गुप्तचर होना चाहिये। जो प्रजाके साथ होनेवाले ग्रामाध्यक्षोंके बर्तावोंकी सूचना दिया करे। खुफिया जाँचसे जो लोग प्रजाको चूसनेवाले, पापी, दूसरोंके धन हड़पनेवाले और शठ प्रतीत हों, ऐसे अधिकारियोंसे वह प्रजाकी रक्षा करे।

राजाको मालकी खरीद-बिक्री, रास्तेकी दूरी, उसके भंगानेका खर्च-बर्च और उसकी लागत तथा बचतका विचार करके ही व्यापारियोंपर टैक्स लगाना चाहिये। इसी तरह मालकी तयारी, उसकी खपत तथा कारीगरीकी मध्यम-उत्तम आदि श्रेणियोंका विचार रखते हुए शिल्प एवं शिल्पकारोंपर कर लगाना चाहिये। इतना अधिक टैक्स न लगावे कि देनेवालोंको विशेष कष्ट हो, उनका काम और मुनाफा देखकर ही सब कुछ करे। अधिक लोभके कारण अपने आधारभूत राज्य तथा प्रजाओंके जीवनभूत खेती-बारी आदिको चौपट न कर डाले। तृष्णाको रोककर प्रजाका प्रेम प्राप्त करे; क्योंकि अधिक चूसनेवाले राजासे सारी प्रजा द्वेष करने लगती है। ऐसी दशामें उसका कल्याण कैसे हो सकता है? जिससे प्रजावर्गका प्रेम हट जाता है, उसे कोई फायदा नहीं पहुँचता। वृद्धिमान् राजाको चाहिये कि वह बछड़ेकी तरह राष्ट्रसे लाभ उठावे। जैसे बछड़ा अधिक कालतक पूरा दूध पीकर बलवान् होनेके बाद ही भारी भार उठानेमें समर्थ होता है और गौको अधिक दूध लेनेसे दूध न मिलनेके कारण जब वह कमजोर हो जाता है, तो काम नहीं दे पाता; इसी प्रकार राज्यका भी अधिक दोहन करनेसे उसकी प्रजा दरिद्र हो जाती है, फिर उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। जो राजा अपने राष्ट्रपर अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है और उसकी उचित आमदनीसे अपनी जीविका चलाता है, उसे बहुत लाभ होता है। (अपने यहाँ तयार हुए मालको बेचनेके लिये बाहर भेजनेसे जो आय होती है, उसे निर्यात कहते हैं।) राजाको विपत्तिके

समय काम आनेके लिये अपने देशमें निर्यातका धन बढ़ाना चाहिये और अपने राष्ट्रको घरमें रक्षित हुआ खजाना समझना चाहिये ।

जब कोई संकट आवे और उस समय धनकी आवश्यकता हो तो देशकी प्रजाको राष्ट्रपर आनेवाले भयका ज्ञान कराना चाहिये । उससे कहना चाहिये—'सज्जनों ! अपने देशपर बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुँची है, शत्रुओंके आक्रमणका भारी खतरा है, मेरे दुश्मन बहुतसे लुटेरोंको साथ लेकर इस देशको संकटमें डालना चाहते हैं । इस घोर आपत्ति और दारुण भयके समय में आपलोगोंकी रक्षाके लिये धन चाहता हूँ । जब संकट टल जायगा, उस समय आपका सारा धन वापस कर दूँगा । यदि शत्रु आ गये तो आपका सारा धन जबरदस्ती लूट ले जायेंगे और फिर वापस नहीं देंगे । इसके सिवा उनके आनेसे आपके बाल-बच्चोंकी जिदगी भी खतरमें पड़ सकती है । बाल-बच्चोंकी ही रक्षाके लिये धनका संग्रह किया जाता है । यदि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हुई तो मैं इन सबकी रक्षा करके आपको आनन्दित करूँगा । अपनी शक्तिभर राष्ट्रको और आपलोगोंको कष्ट न होने दूँगा । जैसे बलवान् बल समय पड़नेपर भारी बोझ उठाता है, उसी प्रकार इस विपत्तिके समय आपलोगोंको भी कुछ भार सहना ही चाहिये ।'

युधिष्ठिरने पूछा—'शराजो ! राजा किसो संकटमें न होनेपर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरहका उपाय काममें लाना चाहिये ?

भीष्मजीने कहा—'धर्मकी इच्छा रखनेवाले राजाको देश और कालकी परिस्थितिका ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बलके अनुसार प्रजाके हितसंग्रहमें संलग्न रहना और सदा उसका ध्यान करते रहना चाहिये । जिसमें प्रजाकी और अपनी भी भलाई जान पड़े, उसी कार्यका यह सारे राष्ट्रमें प्रचार करे । जैसे भौंरा धीरे-धीरे फूलका रस लेता है, उसके बूँदको काटता नहीं, जैसे मनुष्य बछड़ेको कष्ट न देकर धीरे-धीरे गायका दूध चुहता है, उसके पनोंको कुचल नहीं डालता तथा जैसे जौके धीरे-धीरे ही शरीरका रस चूसती है, उसी प्रकार राजा भी कोमलताके साथ ही राष्ट्रको कर वसूल करे । जैसे बाघिन अपने बच्चोंको बाँते पकड़कर इधर-उधर ले जाती है, परंतु उसे पौडा नहीं पहँसने देती, इसी तरह कोमल उपायोसे ही राजा अपने राष्ट्रको दोहन करे—धीरे-धीरे धन संवित करे । उचित समयपर योग्य कार्यके लिये प्रजाको समझा-बुझाकर ही विशेष कर वसूल करना चाहिये, कुसमयमें और अनुचित कार्यके लिये नहीं । शराबखाना खोलनेवाले, बेर्याएँ, कुत्तारों, बेर्याएँ के दलाल, जूआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करनेवाले को...

संप्रह नहीं है, वे यदि विपत्तिके समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म समझकर और दया करके ही देना चाहिये, किसी भय या दवावमें पड़कर नहीं। तुम्हारे राज्यमें मित्रमंगे और लुटेरे न हों; क्योंकि वे सिर्फ प्रजाके धनका अपहरण करते हैं, उसकी उन्नति नहीं करते। जो जीवोंपर-अनुग्रह करते और प्रजाके अन्युदयमें सहायक होते हैं, ऐसे ही लोगोंकी संख्या राज्यमें बढ़नी चाहिये। प्राणियोंका नाश करनेवाले लोगोंको राज्यमें नहीं रहने देना चाहिये। जो अधिकारी मनासिवसे ज्यादा लगान वसूल करते हों, उन्हें दण्ड देना चाहिये तथा वे कितना कर लेते हैं, इसकी जाँचके लिये निरीक्षक नियुक्त करना चाहिये।

खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरहके अन्य व्यवसायों-

में अधिक आदमियोंको लगाना चाहिये। उक्त व्यवसाय करनेवाले लोगोंको हर तरहके संकटसे बचाना चाहिये। राजाको उचित है कि वह देशके धनी व्यक्तियोंको दावत देकर बुलावे और उनका यथोचित सम्मान करके कहे 'आपलोग मेरे सहायक होकर प्रजापर कृपावृष्टि रक्खें।' धनीलोग राष्ट्रके एक प्रधान अङ्ग तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके आधार होते हैं। विद्वान्, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ स्वामी, तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान् मनुष्य ही प्रजाकी रक्षा करते हैं। इसलिये युधिष्ठिर ! तुम सब प्राणियोंसे प्रेम रक्खो और सत्य, सरलता, क्षमा तथा दया आदि सद्गुणोंका पालन करो। ऐसा करनेसे तुम्हें दण्डधारणकी क्षमता, खजाना, मित्र तथा राज्यकी भी प्राप्ति होगी।

राजाके नीतिपूर्ण बर्ताव और उसके द्वारा धर्मपालनकी आवश्यकता

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! जिन वृत्तोंके फल खानेके काम आते हैं, उनको तुम्हारे राज्यमें कोई काटने न पावे—इसका ध्यान रखना। मूल और फल धर्मतः ब्राह्मणके धन बताये जाते हैं, इसलिये भी उनको काटना ठीक नहीं है। यदि ब्राह्मण अपने लिये जीविकाका प्रबन्ध न होनेसे दुर्बल हो जाय और उस राज्यको छोड़कर अन्यत्र जाने लगे तो राजाका कर्तव्य है कि परिवारसहित उस ब्राह्मणके लिये जीविकाका प्रबन्ध करे। ऐसा करनेसे वह निस्संदेह लौट आयगा; यदि इतना करनेपर भी वह कुछ बोले नहीं तो प्रायश्चिता करनी चाहिये—'भगवन् ! मेरे पूर्व अपराधपर वृष्टि न डालिये, उसे भुला दीजिये।' इस तरह विनयपूर्वक उसको प्रसन्न करना राजाका सनातन धर्म है। खेती, पशुपालन और वाणिज्य—ये तो इस लोककी ही आजीविका हैं किन्तु तीनों वेद ऊपरके लोकोंमें भी रक्षा करते हैं। जो लोग उस वेदविद्याके अध्ययनमें या यज्ञ-यागादि वैदिक कर्मोंमें रोड़े अटकाते हैं, वे उर्कत हैं; उनका वध करनेके लिये ही ब्रह्माजीने क्षत्रियोंको उत्पन्न किया है। युधिष्ठिर ! तुम शत्रुओंको जीतो, प्रजाकी रक्षा करो, नाना प्रकारके यज्ञ करते रहो और संप्राममें वीरतापूर्वक लड़ो, कभी पीठ न दिखाओ।

राजाको सम्पूर्ण लोकोंकी भलाईके उद्देश्यसे सदा ही युद्धके लिये तैयार रहना चाहिये और शत्रुओंकी गति-विधिका पता लगानेके लिये सब ओर गुप्तचर तैनात कर देने चाहिये। जो लोग अपने अन्तरङ्ग या आत्मीय हों, उनसे बाहरी लोगोंकी रक्षा करो और बाहरी लोगोंसे अन्तरङ्ग व्यक्तियोंको बचाओ। फिर सबसे अपनी रक्षा करते हुए इस पृथ्वीकी

भी रक्षा करो। मुझमें क्या कमजोरी है ? किस तरहकी आसक्ति है ? कौन-सी ऐसी बुराई है, जो अबतक दूर नहीं हुई और किस कारणसे मुझमें दोष आता है ? इन सब बातोंका तुम्हें सदा विचार करते रहना चाहिये। कसतक मेरा जैसा बर्ताव रहा है, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं या नहीं ? यदि अबसे मेरे बर्तावको लोग जानें तो उसकी तारीफ करेंगे या नहीं ? क्या प्रान्तमें अथवा समूचे राष्ट्रमें मेरा यश लोगोंको अच्छा लगता है ?—ये बातें जाननेके लिये विश्वासपात्र गुप्तचरोंको पृथ्वीपर सब ओर घुमाते रहना चाहिये।

तात युधिष्ठिर ! जो धर्मज्ञ, धैर्यवान् और संप्रामसे कभी पीठ न दिखानेवाले शूरवीर हैं, जो राज्यमें रहकर जीविका चलाते हैं, अथवा राजाके आश्रित रहकर जीते हैं तथा जो अमात्य और तटस्थ वर्गके लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा करें या निन्दा, तुम्हें सबका सत्कार ही करना चाहिये; क्योंकि कित्तीका कोई भी काम सर्वथा सबको अच्छा ही लगे—ऐसा सम्भव नहीं है। सभी प्राणियोंके शत्रु, मित्र और मध्यस्थ होते हैं। भारत ! माल खरीदनेवाले व्यापारी तुम्हारे राज्यमें अधिक टैक्सके भारसे पीड़ित होकर उद्विग्न तो नहीं रहते हैं ? किसानलोग ज्यादे लगान लिये जानेके कारण अत्यन्त कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़ते तो नहीं हैं ? क्योंकि किसान ही राजाका भार ढोते हैं और वे ही दूसरे लोगोंका भी पालन-पोषण करते हैं। इन्हींके दिये हुए अन्नसे देवता, पितर, मनुष्य, सर्प, राक्षस और पशु-पक्षी—सबकी जीविका चलती है।

यह मैंने राष्ट्रके साथ किये जानेवाले राजाके बर्तावका वर्णन किया, इसीसे राजाओंकी रक्षा होती है। इसी विषयको लेकर आगेकी बात भी बताना रहा हूँ। ब्रह्मदेवता उत्तम्य ऋषिने प्रसन्न होकर ध्वनारवके पुत्र मान्यताको जो उपदेश दिया था, वह सब सुनहूँ सुना रहा हूँ, सुनो—

उत्तम्यने कहा—मान्यता! राजा धर्मकी रक्षा और प्रचारके लिये होता है, विषय-सुखोंका उपभोग करनेके लिये नहीं। तुम्हें यह जानना चाहिये कि राजा सम्पूर्ण जगत्का रक्षक है। यदि वह धर्माचरण करता है तो देवता होता है और धर्मका त्याग करता है तो नरकमें पड़ता है। धर्मके ही ऊपर सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति है और धर्म राजाके आधमसे रहता है। परम धर्मात्मा एवं श्रीसम्पन्न राजा धर्मका साक्षात् स्वरूप कहलाता है, यदि वह धर्मका पालन नहीं करता तो देवता उसकी निम्ना करते हैं और वह पापकी भूति समझा जाता है। जो अपने धर्ममें प्रयत्न रहते हैं, उनके ही अभीष्टकी सिद्धि देली जाती है, सारा संसार उस मङ्गलमय धर्मका ही अनुसरण करता है। यदि राजा पापको नहीं रोकता है तो देशमें धार्मिक बर्तावका उच्छेद हो जाता है और सब ओर महान् अधम फैल जाता है, जिससे प्रजाको दिन-रात भय बना रहता है। 'यह मेरी वस्तु है, यह मेरी नहीं है' ऐसा कहना कठिन हो जाता है। सत्युपयोगी बनाने की कोई भी धार्मिक व्यवस्था रहने नहीं पाती। जब पापका बल बढ़ जाता है तो मनुष्योंके लिये अपनी स्त्री, अपने पशु और अपने खेत या घरका ठिकाना नहीं रहता। देवताओंकी पूजा बंद हो जाती है, पितरोंका श्राद्ध रूक जाता है, अतिथियोंका सत्कार नहीं होता, द्विजलोग व्रतधारण (ब्रह्मचर्यपालन)-पूर्वक वेदाध्ययन नहीं करते। ब्राह्मण यज्ञ नहीं करते। बड़े जन्तुओंकी तरह मनुष्योंका मन ध्वराहटमें पड़ा रहता है।

इहलोक और परलोक दोनोंपर दृष्टि रखकर ऋषियोंने स्वयं ही राजाकी सृष्टि की। उन्होंने सोचा—'राजा सब प्राणियोंमें महान् और धर्मका साक्षात् विग्रह होगा।' अतः जिसमें धर्म विराज रहा हो, उसे ही राजा कहते हैं। इसलिये राजाका कर्तव्य है कि वह धर्मका पालन एवं प्रसार करे। धर्मके बढ़नेसे सम्पूर्ण प्राणियोंका अशुभदय होता है और उसकी हानिसे सबकी हानि होती है, इसलिये धर्मका लोप नहीं होने देना चाहिये। ब्रह्माजीने प्राणियोंके कल्याणार्थ ही धर्मकी सृष्टि की है, इसलिये अपने देशमें धर्मका प्रचार कराना चाहिये, यह प्रजाजनोंपर महान् अनुग्रह होगा। राजा यही है, जो धर्माचरणपूर्वक प्रजाका पालन करता है। इसलिये तुम भी काम और श्रेयको त्यागकर धर्मकी ही

रक्षा करो। धर्म ही राजाओंके लिये सबसे बढ़कर कल्याण करनेवाला है।

धर्मका मूल है ब्राह्मण; इसलिये ब्राह्मणोंका सदा ही सम्मान करना चाहिये। ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण न करनेसे राजाके ऊपर भय आता है। राजन्! सत्यलिका पुत्र है दण्ड, जो अधमके अंशसे उत्पन्न हुआ है। उसने बहुतसे देवताओं, अयुरों और राजपियोंका विनाश कर डाला है। उसको जो जीत लेता है, यही राजा होता है; दण्डसे पराजित हो जानेपर तो वह दास ही कहलाता है। यदि तुम चिरकालतक राजसिंहासनपर विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा बर्ताव करो, जिससे तुम्हारे द्वारा दण्ड और अधमको प्रोत्साहन न मिले। मतवाले, असावधान, बालक तथा पागलसे बचो, उनके परिचयसे भी दूर रहो और यदि वे एक साथ रहकर सेवा करना चाहें तो उनको सेवासे तो सर्वथा ही बचे रहो। इसी तरह जिसको एक बार कैद किया हो उस मन्त्रीसे, पराम्भी स्थिरयस्ति, ऊँचे-नीचे एवं दुर्गम पहाड़से और हाथी, घोड़े तथा सर्पसे बचकर रहे। कृपणता, अभिमान, दम्भ तथा श्रेयका सर्वथा परिचय करे। दण्ड्याओं, वैश्याओं, परस्त्रियों और कुमारी कन्याओंके साथ समागम न करे। जब राजा धर्मको ओरसे असावधान रहता है तो उत्तम कुत्तोंमें वर्णसंकर मनुष्योंके अंशसे पापी और राक्षस जन्म लेते हैं। मनुष्य, काने, लंगड़े, लूने, भूंगे तथा बुद्धिहीन बालकोंकी उत्पत्ति होती है। इसलिये प्रजाके हितका स्याल करके राजाको विशेषरूपसे धर्मका आचरण करना चाहिये।

राजाओंके प्रमादसे और भी बहुतसे बड़े-बड़े दोष प्रकट होते हैं। वर्णसंकरोंकी जन्म देनेवाले पापकर्मोंकी वृद्धि होती है। गर्मके मौसममें ठंडक और सर्दोंमें गर्मी पड़ने लगती है। कभी धूला पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा होती है। प्रजामें तरह-तरहके रोग फैल जाते हैं। आकाशमें धूमकेतु आदि तारे उगते हैं, भयंकर प्रहू विलापी बंते हैं तथा राजाके विनाशकी सूचना देनेवाले नाना प्रकारके उत्पात वृष्टिगोचर होते हैं। जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता, वह प्रजाकी भी रक्षा नहीं कर सकता। प्रथम तो उसकी प्रजाका नारा होता है, उसके बाद वह स्वयं भी मरने हो जाता है। जब दो आवर्ग मिलकर एककी वस्तु छीन लेते हैं और बहुतसे मिलकर दोकी मृत्ते हैं तथा कुमारी कन्याओंपर बलात्कार होने लगता है, उस समय इन सारे अपराधोंका दोष राजापर ही लगाया जाता है। राजा धर्म छोड़कर जब प्रमादमें पड़ जाता है तो कोई भी मनुष्य अपने धनको अपना नहीं कह सकता।

धर्मचरणसे लाभ तथा राजाके धर्म

उत्तम्य कहते हैं—राजन् ! जब राजा धर्मका आचरण करे और समयपर वर्षा हो तो उससे जो धन-धान्यादि सम्पत्ति होती है, उसके द्वारा प्रजाका बड़े आनन्दसे पालन-पोषण होता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—ये सब-के-सब राजाके आचरणमें स्थित हैं; राजा ही युगका प्रवर्तक होनेके कारण युग कहलाता है। चारों वर्ण, चारों वेद और चारों आधम—ये सब राजाके प्रभावसे नष्ट हो जाते हैं। जब राजा धर्मकी ओरसे असावधान हो जाता है तो गार्हपत्य, आहवनीय और वक्षिणाग्नि—ये तीन अग्नि, श्रक, राम और यजु—ये तीन वेद और वक्षिणाओंके साथ सम्पूर्ण यज्ञ भी विफ़ल हो जाते हैं। राजा ही प्राणियोंको जन्म देनेवाला और राजा ही उनका नाश करनेवाला है। धर्मात्मा होनेपर यह जीवनदाता है और पापी होनेपर विनाशकारी। राजाके प्रमादप्रसूत हो जानेपर उसकी स्त्री, पुत्र, वान्धव तथा मित्र सब मिलकर शोक करते हैं। उसके हाथी, घोड़े, गौ, ऊँट, खच्चर और गवहे आदि पशु दुःख पाते हैं। विघाताने दुर्बल प्राणियोंकी रक्षाके लिये ही बलसम्पन्न राजाकी उत्पत्ति की है। निर्बल प्राणियोंका महान् समुवाय राजाके ही ऊपर टिका हुआ है। राजन् ! दुर्बल मनुष्य, मुनि और जहरीले सर्पोंकी दृष्टिको मैं बड़ा दुःसह समझता हूँ, इसलिये तुम दुर्बलोंको कमी न सताना। वे जिस कुलकी अपनी शोधाग्निसे जला डालते हैं, उसमें फिर कोई अंकुर नहीं जमता, वह जड़-मूलसहित भस्म हो जाता है। इसलिये अपने बलके अहंकारमें आकर निर्बल मनुष्योंको चूसनेका प्रयत्न न करना; क्योंकि मुझे भय है, जैसे आग अपने आश्रयभूत पाठको जला देती है, उसी प्रकार दुर्बलोंकी दृष्टि मुझें भस्म न कर डाले। झूठे अपराध लगाये जानेपर जब बीन-दुर्बल मनुष्य रोने-बिलखने लगते हैं, उस समय उनकी आँखोंसे जो आँसू गिरते हैं, वे कलझू लगानेवालेके पुत्रों और पशुओंका नाश कर डालते हैं। जैसे पृथ्वीमें बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं देता (समय आनेपर ही उसका फल मिलता है)। जहाँ निर्बल मनुष्य मारा जाता है और उसे कोई रक्षा नहीं मिलता, वहाँ उस सतानेवाले पापीको देवकी ओरसे भयंकर दण्ड प्राप्त होता है।

जब देशके लोग समूह बनाकर भीख मांगते फिरते हैं, तो एक दिन वे राजाका विनाश कर डालते हैं। यदि राजा काम या लोभवश किसी गरीबकी बीनताभरी प्रार्थनाको

ठुकराकर उसके धनको अन्यायपूर्वक छीन ले तो समझना चाहिये उसका महान् विनाश निकट है। जब राज्यकी प्रजा राजाका गुणगान करती हुई धर्मका आचरण तथा वैदिक संस्कारोंका विधिवत् अनुष्ठान करती है, उस समय राजा पुण्यका भागी होता है और वही प्रजा जब धर्मके स्वरूपको न समझकर अधर्ममें प्रवृत्त हो जाती है तो राजाको पापका भागी होना पड़ता है। जहाँ पापी मनुष्य प्रकट रूपसे अत्याचार करते हुए विचरते हैं, सत्युत्सवोंकी दृष्टिमें उस राज्यके भीतर कलियुग प्रकट हुआ समझा जाता है। परंतु जब राजा दुष्ट मनुष्योंको दण्ड देता है, तो उसके राज्यमें सर्वत्र अभ्युदय होने लगता है।

अपने आश्रितोंको बाँटकर खाना, मन्त्रियोंका अनावर न करना और बलके धर्मडमें चूर रहनेवालोंका दमन करना राजाका धर्म है। मन, वाणी और शरीरसे समस्त प्रजाकी रक्षा करना तथा अपराध करनेपर पुत्रको भी क्षमा न करना राजाका धर्म कहा गया है। राष्ट्रकी रक्षा, लुटेरोंका मूलोच्छेद और संप्राममें विजय—राजाके लिये धर्म माना गया है। अपना प्रियसे भी प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह श्रियाद्वारा अथवा वाणीसे भी पाप करे तो राजाका कर्तव्य है कि वह उसे क्षमा न करके दण्ड ही दे। शरणागतोंका पुत्रकी भाँति पालन करे और धर्मकी मर्यादा भंग न होने दे। जिस समय राज्यमें रहनेवाले लोग राग-द्वेषका त्याग करके श्रद्धापूर्वक यज्ञ करें और उसमें प्रचुर वक्षिणा दें, उस समय राजाके द्वारा धर्मपालन हुआ समझा जाता है। बीन-बुली, बुद्ध तथा अनाथोंके आँसू पोंछकर उन्हें प्रसन्न करना, मित्रोंको बढ़ाना, शत्रुओंका संहार करना, साधु पुरुषोंका पूजन, सत्यका पालन, भूमिदान, अतिथियोंका सत्कार और भृत्योंका पोषण करना राजाका धर्म है। जिसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित हैं—जो दुष्टोंको दण्ड देता और सत्युत्सवोंपर कृपा रखता है, उस राजाको इस लोकमें और परलोकमें भी सुख मिलता है। राजा दुष्टोंको दण्ड देनेके कारण यम और धार्मिकोंपर अनुग्रह करनेसे उनके लिये परमेश्वरके समान है। जब वह अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखता है, तो राज्यशासनमें समर्थ होता है और जब उनको वशमें नहीं रखता तो अपनी मर्यादासे नीचे गिरता है। ऋत्विक्, पुरोहित और आचार्यका सत्कार करे, उनका अनावर न होने दे तथा उनके साथ उचित बर्ताव करे—यह राजाका धर्म है। जैसे यमराज सभी प्राणियोंपर समान रूपसे शासन करते हैं, उसी

प्रकार राजाको भी बिना किसी भेदभावके सभी प्राणियोंकी नियन्त्रणमें रखना चाहिये । प्रमाद छोड़कर क्षमा, विवेक, धैर्य और सद्बुद्धिकी शिक्षा लेनी चाहिये । सब प्राणियोंकी सामर्थ्यका ज्ञान रखना चाहिये । मोठे अचन धोलना तथा नपर और देशके लोगोंको रक्षा करते रहना चाहिये ।

तात ! राज्यकी रक्षा तो बही कर सकता है, जो बुद्धिमान् और शूरवीर होनेके साथ ही दण्ड देनेका ढंग जानता हो । जो दण्ड देनेसे हिचकता है, वह भूल्ल और कायर मनुष्य क्या राज्यकी रक्षा करेगा ? तुम्हें सुन्दर, कुलीन, राजमत्त एवं बहुत्र मन्त्रियोंको साथ लेकर आभम-वासी तपस्वियों तथा दूसरे लोगोंको भी बुद्धिकी परीक्षा करनी चाहिये । इससे तुमको सम्पूर्ण भूतोंके परमधर्मका ज्ञान हो जायगा, फिर स्वदेशमें रहो या परदेशमें, कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा । इस तरह विचार करनेसे धर्म ही अर्थ और कामसे श्रेष्ठ सिद्ध होता है । धर्महीमा पुरुष इस लोकमें तथा परलोकमें भी सुख उठाता है । यदि

मनुष्योंको सम्मान दिया जाय तो वे सम्मानदाताके हितके लिये अपने पुत्रों और स्त्रियोंको भी निष्ठावर कर देते हैं । प्राणियोंको अपने पक्षमें मिलाये रखना, उन्हें कुछ देना, मोठी शोली धोलना, प्रमादका त्याग करना और पवित्र रहना—ये राजाका ऐश्वर्य बढ़ानेके महान् साधन हैं । माग्धता ! तुम इन सब बातोंको औरसे कभी उपेक्षा न रखना । इन्द्र, वरुण, यम तथा सम्पूर्ण राक्षसियोंने ऐसा ही बर्ताव किया है, इसीका तुम भी पालन करो । जो राजा धर्मका आचरण करता है, उसके सुयराको देवता, श्रिय, पितर और गन्धर्व सदा गाते रहते हैं ।

भीष्मजी कहते हैं—उत्पत्य मुनिके इस प्रकार उपदेश देनेपर माग्धताने निर्भीक होकर उसका पालन किया और बिना किसीको सहायताके सम्पूर्ण पृथ्वीपर अधिकार जमा लिया । राजा मुधिष्ठिर ! तुम भी माग्धताकी ही भाँति धर्मका पालन करते हुए इस पृथ्वीकी रक्षा करो ।

राजाके आचरणके विषयमें वामदेवजीके उपदेशका उल्लेख

राजा मुधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! जो धर्मनिष्ठ राजा अपने धर्ममें स्थित रहना चाहे, उसे किस प्रकार बर्ताव करना चाहिये ?

भीष्मजी बोले—राजन् ! इस विषयमें तत्त्वदर्शी महात्मा वामदेवजीका उपदेशरूप एक इतिहास प्रसिद्ध है । वसुमता नामके एक विचारशील, धैर्यशाली और पवित्रचित्त राजाने एक बार परम तपस्वी मुनिवर वामदेवजीसे पूछा था, 'भगवन् ! आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिसके अनुसार आचरण करनेसे मैं अपने धर्मसे कभी न गिहँ ।' तब महातेजस्वी तपोनिष्ठ भगवान् वामदेवजी कहने लगे— "राजन् ! तुम धर्मका ही अनुष्ठान करो, धर्मसे बढ़कर कोई भी चीज नहीं है । जो राजा धर्ममें स्थित रहते हैं, वे इस सारी पृथ्वीको अपने कायमें कर लेते हैं । जिसकी दृष्टिमें अर्थसिद्धिकी अपेक्षा भी धर्मका विशेष महत्त्व है और जो उसीको बढ़ानेका विचार करता है, धर्मके कारण उसकी बड़ी शोभा होती है । इसके विपरीत जो राजा अधर्ममग्न होकर बलात्कारसे उसीका आचरण करता है, उसे धर्म और अर्थ बात-की-बातमें छोड़कर चले जाते हैं । जो दुष्ट अपने पापी मन्त्रीकी सहायतासे धर्मकी हानि करता है, वह अपने परिवारके सहित प्रजाका वध ही जाता है ; उसका सर्वनाश होनेमें देरी नहीं लगती । किंतु जो हितकारी बातोंको ग्रहण

करनेवाला, ईर्ष्याग्न्य, जितेन्द्रिय और बुद्धिमान् होता है, उस राजाकी इसी प्रकार बुद्धि होती है जैसे नदियोंके प्रवाहसे समुद्रकी । राजाको चाहिये कि धर्म, अर्थ, काम, बुद्धि और भित्तोंसे सम्पन्न होनेपर भी अपनेको कभी पूर्ण न समझे । ये धर्मादि ही राजाकी लोकपालाके आधार हैं । इन्होंने द्वारा उसे यश, कौर्ति, वैभवं और प्रजाको प्राप्ति होती है । किंतु जो राजा कृपण, स्नेहशून्य, दण्डके द्वारा प्रजाको दुःख देनेवाला और बुद्धिहीन होता है तथा जिसे अपराधीको भी पहचान नहीं होती, उसको लोकमें अपकीर्ति होती है और मरनेपर नरकमें जाना पड़ता है तथा जो दूसरोंका मान करनेवाला, दानी, भयुरभाषी, धर्मके विषयमें गुरुको सम्मतिसे चलनेवाला, अपने अर्थको स्वयं समझनेवाला और धर्मको ही सबसे बड़ा लाभ माननेवाला होता है, वह राजा बहुत दिनोंतक सुख भोगता है ।

"जिस राज्यमें अपने बलके धर्मसे राजा दुर्बलपर अत्याचार करने लगता है, वहाँ उसके अनुयायी भी इसी प्रकारके आचरणको अपनी जीविकाका साधन बना लेते हैं । वे लोग तो उस पापी राजाका ही अनुसरण करते हैं । इससे लोगोंमें उद्दण्डता फैल जानेसे बहुत जल्द ही वह राज्य नष्ट हो जाता है ।

"राजाको चाहिये कि यदि किसीका अभियं कि

किर उसका प्रिय भी करे। इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी प्रिय करने लगता है तो थोड़े ही समयमें वह प्रिय हो जाता है। मिथ्या भाषण न करे; बिना कहे ही दूसरोंका प्रिय करे; किसी कामनासे, क्रोधमें आकर अथवा द्वेषवशा धर्मका त्याग न करे, कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देनेमें संकोच न करे, बिना विचारे कोई भी बात मुंहसे न निकाले, किसी काममें जल्दबाजी न करे और किसीमें भी दोष-दृष्टि न करे। ऐसे आचरणसे शत्रु भी अपने वशमें हो जाता है। यदि अपना प्रिय हो जाय तो वहुत प्रसन्न न हो और अप्रिय हो जाय तो घबरावे नहीं। यदि आमदनीमें कमी पड़ जाय तो दुःखी न हो। उस समय भी प्रजाके ही हितका विचार करे। जो बड़े-बड़े काम हों, उनपर जितेन्द्रिय, अत्यन्त अनुगत, पधिव्राता, सामर्थ्यवान् एवं प्रीतिमान् पुरुषोंको नियुक्त करे। इसी प्रकार जिसमें ये सब गुण हों और जो राजाको प्रसन्न भी रख सकता हो तथा स्वामीका काम करनेमें सदा सायधान रहता हो, उसे धनकी व्यवस्थाका काम सौंपे। जो राजा मूर्ख, दृन्ध्रियलोलुप, लोभी, बुराचारी, वृष्ट, कपटी, हिंसक, वृष्टवृद्धि, अविद्वान्, अनुदार, मरुपी, जुबारी, स्त्रीलम्पट और आखेटप्रिय पुरुषको महत्त्वपूर्ण कार्योंपर नियुक्त करता है, उसकी राज्यलक्ष्मी नष्ट हो जाती है। जो राजा अपने शरीरकी रक्षा और अपने रक्षणियोंकी रक्षाका टोक प्रबन्ध करता है, उसकी प्रजाकी वृद्धि होती है और उसे अवश्य ही महत्ता प्राप्त होती है।

“राजन् ! इस जगतमें सभी पदार्थ नाशवान् हैं, कोई भी वस्तु निरापव नहीं है; इसलिये राजाको धर्मपर स्थित रहकर धर्मानुसार ही प्रजाका पालन करना चाहिये। युवाकी रक्षाके साधन, युद्धकी सामग्री, न्यायकी व्यवस्था, मन्त्रियोंके सत्परामर्श और प्रजाको यथासमय सुख पहुँचाना—इन पाँच बातोंसे राज्यकी उत्पत्ति होती है। एक ही पुरुष इन सब बातोंपर सर्वथा ध्यान नहीं रख सकता; इसलिये इन्हें योग्य अधिकारियोंको सौंप देनेसे राजा वहुत दिनोंतक राज्य भोग सकता है। जो पुरुष वानशील, मृदुलस्वभाव, पथिवचरित्र और बुद्धके समय अपने आर्षियोंको न छोड़ने-वाला होता है, उसीको लोग राजा बनाते हैं। किन्तु जो मनके प्रतिकूल होनेके कारण अपने हितैषीकी बात नहीं सुनता, सर्वथा सापरवाह-सा रहता है और बुद्धिमानोंके आचरणोंका

अनुसरण नहीं करता, वह क्षात्रधर्मसे पतित हो जाता है। जो प्रधान मन्त्रियोंका त्याग करके निम्नश्रेणीके लोगोंको अपना प्रिय बनाता है, द्वेषवश अपने सद्गुणी सम्बन्धियोंका भी सम्मान नहीं करता तथा जो चञ्चलचित्त और अत्यन्त श्रोधी है, वह तो सर्वदा मृत्युके ही पक्षोसमें रहता है। असमयमें कमी कर न लगावे; अप्रिय हो जानेपर कभी बुद्धी न हो; प्रिय होनेपर हर्षसे फूल न जाय; सदा शुभकर्मोंमें लगा रहे; इस बातका ध्यान रखके कि कौन राजा मुझसे प्रेम रखते हैं, कौन केवल भयसे आश्रय लिये हुए हैं और कौन इनमें बीचकी-सी स्थितिमें हैं तथा बलवान् हो जानेपर भी अपने निर्बल शत्रुका कभी विश्वास न करे। जो लोग पापवृद्धि होते हैं, वे अपने सर्वगुणसम्पन्न और प्रियभाषी स्वामीसे भी द्रोह करनेमें नहीं चूकते, इसलिये ऐसे लोगोंका कभी विश्वास न करे।

“यदि राज्यकी जड़ मजबूत न हो तो राजाको अनधिकृत देशोंपर अधिकार करनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि जिसके मूलमें ही दुर्बलता है, उस राजाको इस प्रकारका लाभ होना सम्भव नहीं है। किन्तु जिस राजाका देश प्रशास्त, धन-धान्यसे पूर्ण, राजमय और संतुष्ट हो तथा जिसके मन्त्री सुयोग्य हो और सैनिक संतुष्ट, सुशिक्षित एवं शत्रुओंको खदेड़नेमें समर्थ हों, वह थोड़ी-सी सेनासे भी विजय प्राप्त कर सकता है। जिस राजाके पुरवासी और वेशवासी जीवोंपर दया करनेवाले और धनसम्पन्न होते हैं, उसकी जड़ मजबूत कही जाती है। जिसका वैभव दिनोंदिन बढ़ रहा हो, जो सब प्राणियोंपर दया रखता हो, काम करनेमें फुर्तीला हो और अपने शरीरकी रक्षाका ध्यान रखता हो, उस राजाके राज्यकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। बुद्धिमान् राजाको ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिये जिसे भले आदमी बुरा समझते हों, उसे ऐसे काममें ही मन लगाना चाहिये जिससे सयका हित हो। जो राजा इस प्रकारका बर्ताव करता है, वह इस लोक और परलोक दोनोंको सुधारकर विजय प्राप्त करता है।”

भीष्मजी कहते हैं—वामदेवजीके इस प्रकार कहनेपर राजा वसुमनाने सब काम उसी रीतिसे किये। यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे तो निःसंवेह अपने दोनों लोक बना लोगे।

राजमत्त होता है तथा जिसके सेवक और मन्त्री संतुष्ट रहते हैं, उसीकी जड़ मजबूत कही जाती है। जो राजा ऋत्विक्, पुरोहित, आचार्य तथा अन्यान्य शास्त्रज्ञोंका सत्कार करता है, वही लोकगतिको जाननेवाला कहा जाता है। यही प्राचीन

कालके धर्मज्ञ राजाओंका धर्म है। जिस राजाको अपने वंभवकी वृद्धिकी इच्छा हो उसे सब प्रकार युद्धकौशलसे ही विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनी चाहिये, कपट या बन्धके द्वारा नहीं।

युद्धमें होनेवाली हिंसाके प्रायश्चित्त और वीर तथा कायरोंकी प्राप्त होनेवाले लोकोंका वर्णन

राजा युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! क्षात्रधर्मसे बढ़कर पापपूर्ण तो कोई भी धर्म नहीं है; क्योंकि राजा तो कूच करने और युद्ध करनेके समय बहुत-से मनुष्योंकी हत्या कर डालता है। सो कृपा करके यह वतलाइये कि ऐसा कौन धर्म है जिसके द्वारा उसे पुण्यलोकोंकी प्राप्ति हो सकती है ?

भीष्मजी बोले—राजन् ! पापियोंको दण्ड और सत्पुरुषोंको आश्रय देनेसे तथा यज्ञानुष्ठान और दान करनेसे राजालोग सब प्रकारके दोषोंसे छूटकर शुद्ध हो जाते हैं। यह ठीक है कि विजयप्राप्तिकी लालसासे पहले तो राजालोग जीवोंको कष्ट ही पहुँचाते हैं, किंतु विजय प्राप्त कर लेनेपर फिर वे ही प्रजाकी उन्नति भी तो करते हैं। वे दान, यज्ञ और तपके प्रभावसे अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं, फिर तो उनके पुण्यकी ही वृद्धि होती है। जिस प्रकार खेती निरानेवाला पुरुष खेतकी सफाई करनेके लिये घास-फूसको उखाड़ डालता है, किंतु इससे उस खेतीफा कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार जो शस्त्र चलाकर तरह-तरहसे सेनाको संतप्त कर रहा है, उस राजाके इस कर्मका यही पूरा-पूरा प्रायश्चित्त है कि फिर युद्धसे बचे हुए लोगोंकी उन्नति होने लगती है। जो राजा प्रजाको धनक्षय, प्राणनाश और दुःखोंसे बचाता है तथा लुटेरोंसे उसके प्राणोंकी रक्षा करता है, वह धनदायक और सुखप्रद माना जाता है। जो निर्भय होकर शत्रुओंपर चाणचर्या करता है, उससे बढ़कर देवता लोग संसारमें और किसीको नहीं समझते। उसके शस्त्र संग्राम-भूमिमें शत्रुकी त्वचाको जितने स्थानोंपर छेदते हैं, उसे सब प्रकारकी कामनाओंको पूरी करनेवाले उतने ही अविनाशी लोक प्राप्त होते हैं। उसके शरीरसे जो युद्धस्थलमें खून बहता है उसीके कारण वह सारे पापोंसे भुक्त ही जाता है। धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि क्षत्रिय युद्ध करनेमें जो तरह-तरहके दुःख सहता है, उनसे उसका तप ही बढ़ता है। विपक्षी घोरोंसे अपनी रक्षा चाहनेवाले डरपोक पुरुष तो घोरोंके पीछे रहा करते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं वे ही पुण्यके भागी होते हैं। वीर पुरुष शत्रुओंका सामना करता है,

इसलिये वह स्वर्गके रास्तेपर बढ़ने लगता है तथा कायर अपने साथियोंको संकटमें डालकर मैदान छोड़कर भाग जाता है। जो क्षत्रिय ऐसा क्रुत्सित आचरण करे उसे लाठी और डेलोंसे मार डाले, अथवा मुर्देकी तरह आगमें जला दे या पशुओंकी तरह पीट-पीटकर मार डाले। राजन् ! क्षत्रियका घरके भीतर मरना अच्छा नहीं समझा जाता। जिन्हें शूरत्वका अभिमान होना चाहिये, उनकी यह दुर्बलता अधर्मरूप और निन्दाके योग्य है। जो क्षत्रिय रोगशय्यामें पड़कर दीनवदन और दुर्गन्धपूर्ण होकर 'हाय ! बड़ा दुःख है, बड़ी पीड़ा है, मैं बड़ा पापी हूँ' इस प्रकार बड़बड़ाता है और अपने आश्रितोंको शोकाकुल कर देता है, वह निन्दनीय ही है। सच्चा क्षत्रियकुमार तो अपने जाति-भाइयोंके साथ शत्रुओंका संहार करते हुए उनके पंने शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न होकर ही मरना चाहता है। वह कभी युद्धमें पीठ नहीं दिखाता और अपने प्राणोंकी परवा न करके पूरी शक्तिते शत्रुओंका सामना करता है। इससे उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। ऐसा शूरवीर, यदि दीनताको पास नहीं फटकने देता तो शत्रुओंसे घिरकर कहीं भी मारा जाय, अक्षय लोकोंको ही प्राप्त करता है।

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! जो शूरवीर युद्धमें पीठ नहीं दिखाते और रणाङ्गणमें ही अपने प्राण त्यागते हैं उन्हें किन लोकोंकी प्राप्ति होती है—यह बतानेकी कृपा करें।

भीष्मजी बोले—राजन् ! इस विषयमें यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है, जिसमें राजा प्रतर्वन और मिथिलेश्वर जनकके युद्धका उल्लेख है। उस समय सब प्रकारके तत्त्वोंको जाननेवाले मिथिलाधिपतिने अपने घोड़ाओंको स्वर्ग और नरक दिखलाते हुए इस प्रकार कहा था, 'वीरो ! देखो, ये तेजोमय लोक संग्राममें निर्भय होकर जूझनेवालोंको मिलते हैं। ये सभी प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं और देखो, ये नरक दिखायी दे रहे हैं। जो लोग युद्धसे भागते हैं, उनकी इस लोकमें सदाके लिये अपकीर्ति होती है और अन्तमें इन्हींमें जाना पड़ता है। इन्हें देखनेके बाद अब तुम प्राणोंका

य और कामके अनुसार व्यवहार करे। जो राजा इन सब बातोंपर विचार कर गुण विधि और नमस्त्रमें बढ़ाई करता वह अपनी सेनाका ठीक संभालन करते हुए विजय प्राप्त करता है।

जो लोग जो रहे हों, प्यासे हों, थक गये हों अथवा घर-घर भाग रहे हों उनपर चोट न करे। शस्त्र और तब उतार देनेके बाद, घृष्टस्थानमें जाते समय, पानी पीते या भोजन करते समय भी किसीको न मारे। इसी प्रकार तो बहुत धरमारे हुए हों, पागल हो गये हों, घायल हों, बदन ही गये हों, अस्वास्थान हों, दूसरे किसी काममें लगे हों, गृह धूमते हों, छावनीकी और भाग रहे हों, उनपर भी हार न करे।

जो गद्दकी सेनाको छिन्न-भिन्न कर सकते हों और अपनीकी संगठित करनेकी शक्ति रखते हों, उनको अपने साथ भोजन कराना चाहिये और साथ ही रखना चाहिये तथा दुग्ना बदन देना चाहिये। सेनामें कुछ लोगोंको तो सन्देश सैनिकोंका नायक बनावे और कुछको सौका तथा कर एक हजार वीरोंका अध्यक्ष नियुक्त करे। प्रधान-स्थान वीरोंको इच्छा करके यह प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राममें विजय प्राप्त करनेके लिये अन्ततक एक दूसरेको नहीं छोड़ेंगे। उन्हें यह भी समझा दे कि युद्धके नैदानमें भागनेमें कई प्रकारके दोष हैं। इससे अपने प्रयोजनकी हानि, घाते समय गद्दके हाथसे वध और अपयश तो होते ही हैं, लोगोंके मुखमें तर्ज-तर्जकी अभ्रिय और दुःखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती हैं। जो लोग युद्धमें पीठ दिखाते हैं वे तो नामके ही मनुष्य हैं। वे केवल योद्धाओंकी संख्या बढ़ानेवाले ही हैं, उन्हें इन्होके या परलोकमें कहीं भी सुख नहीं मिलता। इसलिए निश्चय करो कि हम स्वर्गकी कामनासे संग्राममें अपने प्राण होल देंगे। वध, या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्धमें मरकर नृगत पायेंगे। जो लोग इस प्रकार समय करके प्राणोंका मोह त्याग देते हैं वे निर्मय होकर गद्दकी सेनामें घुस जाते हैं।

सेनाकी व्यवस्था करते समय सबसे आगे दान-सहाय्यकारी पुरुषोंको टुकड़ी रखते, पीछेकी और रथियोंको छोड़ा करे और बीचमें परिवारके लोगोंको रखे। शत्रुओंपर आक्रमण करनेके लिये जो पुराने सैनिक हों वे आगे रहें और अपने पीछे चलनेवाले परातिथियोंका उत्साह बढ़ावे। उन्हें प्रयत्नपूर्वक दरमोको भी उत्साहित करना चाहिये। अथवा उन्हें केवल सेनाका विधेय समुदाय दिखानेके लिये ही साथ रखें। यदि पीछे सैनिकोंको बहुतोंके साथ युद्ध करना पड़े तो उन्हें नृचामूल नामका पृह बनाना चाहिये

और हाथ उठाकर इस प्रकार कोलाहल करना चाहिये—
'दिलो, देखो, वीरी भाग रहे हैं। हमारी मित्रसेना आ गयी है, बैलढके चोट किये जायो।' इस प्रकार भोजन शब्द करते हुए साहसके साथ शत्रुपर प्रहार करें। जो लोग सेनाके मुहानेपर हों, उन्हें गर्जन-नर्जन और किलकिला शब्द करते हुए ककच, नरसिंहे, मेरी, मृदङ्ग और डोल भाँरि बाजे बजवाने चाहिये।

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! युद्ध करनेमें कैसे त्वनाव, कैसे आचरण और कैसे रूपवाले योद्धा ठीक रहते हैं तथा उनके कवच और मन्त्रास्त्र भी कैसे होने चाहिये ?

भीष्मजी बोले—राजन् ! शस्त्र और बाहुन तो योद्धाओंके देश और कुलके अनुस्यू ही होने चाहिये तथा अपने कुलाचारके अनुसार ही वे युद्धकार्यमें प्रवृत्त हुआ करते हैं। गान्धार और सिन्धुतीवरी देशोंके योद्धा दाँतों-वाले प्रासने युद्ध करते हैं। वे बड़े निडर और बलवान् होते हैं। उगीनरदेशके वीर सभी प्रकारके शस्त्रोंमें कुशल और बड़े बलशाली होते हैं। पूर्वा योद्धा गजयुद्धमें पारंगत होते हैं, वे कपटयुद्ध करना खूब जानते हैं। यवन, काम्बोज और मयूराकी ओरके योद्धा मल्लयुद्धमें पक्के होते हैं और बसिणी वीर तलवार चलाना अच्छा जानते हैं। जिन योद्धाओंकी बाणी और नेत्र सिंह या गार्दूलके समान हों, वे बड़े लड़ाके होते हैं। जिनका शब्द मेघके समान, मुख श्रोत्रयुक्त, शरीर ऊँचको तरह और नाक तथा जीभ टेढ़ी हों, वे बहुत दूरतक चढ़नेवाले और दूरहीसे शत्रुपर निशाना छोड़नेवाले होते हैं। जिनका शरीर विलावकी तरह चाँका और देहके बाल और चाल पतले होते हैं, वे बड़े शीघ्रगामी, चञ्चल और कठिनतासे काट्टमें जानेवाले होते हैं। जिनके शरीर गठीले, छाती चौड़ी और अङ्ग-प्रत्यङ्ग मुडील होते हैं, वे वीर युद्धका धौसा मुनते ही श्रोत्रमें भर जाते हैं तथा उन्हें युद्ध करनेमें ही आनन्द आता है। जिनके नेत्र तिरछे, ललाट ऊँचे और नीचेके बोंठ पतले होते हैं, जिनकी भ्रूजाओंपर बज्रका और अंगुलियोंपर चक्रका चिह्न होता है तथा जिनकी नाडियाँ दिखायी देती हैं वे युद्धके आरम्भमें ही बड़े वेगसे शत्रुकी सेनामें घुस जाते हैं तथा मतवाले हाथियोंके समान बड़े दुर्घ्न होते हैं। जिनके बालोंके अग्रभाग पीले और छितराये हुए, पसलियाँ, ठोड़ी और मुँह चौड़े तथा कंधे ऊँचे होते हैं, गरदन मोटी और पिढली भारी होती है तथा सिर गोल, और स्वर कठोर होता है, वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्धमें शत्रुपर एकदम दूट पड़ते हैं। जिनके धर्मका ज्ञान नहीं होता, जो अभिमानो, उग्र तथा देखनेमें भयंकर होते हैं, ऐसे मनुष्य

प्रायः नीच जातिके हुआ करते हैं, वे भी जीने-मरनेकी परवा छोड़कर युद्ध करते हैं, कभी पीछे पर नहीं हटाते। उन्हें सेनामें सदा आगे रखना चाहिये। वे साहसके साथ शत्रुओंकी घोट सहते और उनपर भी प्रहार करते हैं। उन अधर्मी पुरुषोंको मर्यादापालनका खयाल नहीं रहता, वे कभी-कभी अकारण ही राजापर भी विगड़ उठते हैं; अतः उन्हें मोठी बातों से समझानुसार ही काममें रखना चाहिये।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! सेनाकी विजयके शुभ लक्षण कौन-कौनसे हैं? मैं उन्हें जानना चाहता हूँ।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! जिन शुभ लक्षणोंको देखकर सेनाके विजयिनी होनेका अनुमान किया जाता है, उन्हें बताता हूँ, मुने—दैवके प्रकोपसे ही मनुष्योंपर कालकी प्रेरणा होती है; इस बातको अपनी ज्ञानदृष्टिसे जानकर विद्वान् लोग उसका प्रायश्चित्त करते हैं। जप-होम आदि माङ्गलिक कर्मोंका अनुष्ठान करके दैवी उपद्रवको शान्त कर देते हैं। जिस सेनाके वाहन और सैनिक प्रसन्न एवं उत्साह-युक्त दिखायी दें, उसकी विजय अवश्य होती है। यदि सेनाकी रणपात्रोंके समग्र पीछेसे मंद-मंद हवा चले, सामने इन्द्रधनुषका उदय हो, धूप निकली हो, थोड़ी-थोड़ी देरमें बादलोंकी छाया होती रहे तथा गोदड़, गिद्ध और कोए अनुकूल दिशामें आ जायें तो विजय मिलनेमें संदेह नहीं रहता। बिना धूपकी ऊपर उठती हुई आगकी ज्वाला अथवा दाहिनी ओर जाती हुई लपटोंका दिखायी देना तथा होमको पवित्र सुगन्धका आना—ये भावी विजयके शुभ चिह्न हैं। शत्रुओंकी भस्मीर ध्वनि, रणभेरीकी ऊँची आवाज और योद्धाओंका अनुकूल रहना भी भविष्यमें होनेवाली विजयके शुभ लक्षण हैं। सेनाके कूच करते समय मृगोंके झुंडका पीछे या बायीं ओर दिखायी देना तथा युद्ध-कालमें दाहिने रहना शकुन है, किन्तु सामनेकी ओर दिखायी देना अच्छा नहीं है। हंस, कौञ्च, शतपत्र और नीलकण्ठ आदि पक्षी मङ्गलसूचक शब्द करते हैं और सैनिक उत्साह-सम्पन्न एवं प्रसन्न दिखायी दें तो भावी विजयका अनुमान होता है। जिनकी सेना तरह-तरहके शस्त्र, धनुष, कूच तथा ध्वजआसे सुशोभित हो, जिनके लड़नेवाले जवानोंके चेहरेपर प्रसन्नताकी लक्षक हो तथा दुरमनोंको जिनकी फौजकी ओर देखनेका भी साहस न होता हो, ये निश्चय ही अपने शत्रुओंको परास्त करते हैं। जिनके सैनिक स्वामीकी सेवामें उत्साह रखनेवाले, अहंकाररहित, आपसमें एक-दूसरेका हित चाहनेवाले तथा सदाचारका पालन करनेवाले हों, उनकी होनेवाली विजयका यही शुभ लक्षण है। जब योद्धाओंके मनको प्रिय सपनेवाले शब्द, स्वर्ण तथा

सुगन्ध प्राप्त हों और उनके भीतर धैर्यका संचार हो रहा हो तो इसे विजयका द्वार समझना चाहिये। यदि कौआ युद्धमें प्रवेश करते समय दाहिने भागमें और प्रविष्ट हो जानेके बाद वामभागमें शब्द करता हुआ आ जाय तो शुभ है। पीछेकी ओर होनेसे भी वह कार्यकी सिद्धि करता है किन्तु सामने होनेपर विजयमें बाधा डालता है। युधिष्ठिर! चतुरंगिणी सेना इकट्ठी कर लेनेके बाद भी तुम्हें पहले सामनीतिके द्वारा शत्रुसे संधि करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये। युद्धमें मार-काट करनेके बाद जो विजय मिलती है, वह उत्तम नहीं समझी जाती। वह भी अवाजग या दंबेच्छासे ही प्राप्त होती है—उसका पहलेसे कोई निश्चय नहीं रहता।

इसके सिवाय बड़ी सेनामें जब भगदड़ पड़ जाती है तो उसे रोकना कठिन हो जाता है। जैसे मृगोंके झुंडमेंसे एकके भागनेपर सब भागने लगते हैं, वही दशा बड़ी सेनाकी भी होती है। उसमें कितने ही बलवान् वीर बर्षों न हों, कुछ सौभ भाग रहे हैं—इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं; यद्यपि उन्हें भागनेका कारण मात्तम नहीं रहता है। किन्तु अच्छे कुलमें उत्पन्न, परस्पर संगठित एवं राजाद्वारा सम्मानित हुए पाँच-छः वीर भी यदि मरने-मारनेका निश्चय करके युद्धमें डटे रहें तो वे शत्रुओंपर विजय पा जाते हैं। जबतक संधि होनेकी सम्भावना हो तबतक युद्ध नहीं छोड़ना चाहिये। पहले सामनीतिका आश्रय लेकर शत्रुओंको समझानेका प्रयत्न करे, इससे काम न चले तो भेदनीतिके अनुसार उनमें फूट डालनेकी कोशिश करे, इसमें भी सफलता न मिले तो दाननीतिका प्रयोग करे—घन देकर शत्रुके सहायकोंको वशमें करनेका प्रयास करे, जब किसी तरह युद्ध रोकनेमें कामयाबी न हो तो अन्तमें युद्ध करना चाहिये।

कुन्तीनन्दन! सत्पुरुषोंको ही क्षमा करना आता है, दुष्टोंको नहीं। क्षमा करने और न करनेका प्रयोजन बताता हूँ, इसे समझो। जो राजा शत्रुओंको जीत लेनेके बाद उनके अपराध क्षमा कर देता है, उसका यश बढ़ता है। शत्रु भी उसपर विश्वास करने लगते हैं। राजाको चाहिये कि वह पुत्रकी ही भाँति अपने शत्रुको भी बिना शोध किये ही वशमें करे, उसका विनाश न करे। युधिष्ठिर! राजा यदि उग्र-स्वभावका होता है तो सब प्राणी उससे द्वेष करने लगते हैं और कोमल हुआ तो सब उसकी अवहेलना करते हैं, इसलिये उसे आवश्यकतानुसार उपता और कोमलता दोनोंसे काम लेना चाहिये। शत्रुपर प्रहार करनेसे पहले और प्रहार करते समय भी उससे मोठे वचन बोले। प्रहारके बाद भी शोक प्रकट करते हुए उसके प्रति दया दिखावे और शत्रुको सुनाकर कहें—‘ओह! इस गन्धमें मेरे पितापितृने जो अन्न

वीरोंको मार डाला है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा—इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैंने बारंबार मना किया, तो भी इन्होंने मेरे कहनेपर ध्यान नहीं दिया। उरु ! ये वीर तो किसी तरह मारनेयोग्य नहीं थे। इन्होंने संग्रामसे कभी पीछे पैर नहीं हटाये; ऐसे सत्पुरुष इस संसारमें दुर्लभ हैं। मेरे जिन सैनिकोंने इन शूरवीरोंका वध किया है, उनके द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय कार्य हुआ है !'

शत्रूपक्षके बचे हुए वीरोंके सामने इस प्रकार खेद प्रकट करके एकान्तमें जानेपर अपने बहादुर सैनिकोंकी प्रशंसा करे। जिन्होंने शत्रुवीरोंका वध किया हो, उनका विशेष

सन्मान करे। इसी तरह शत्रुको मारनेवाले अपने पक्षके वीरोंसे जो घायल हों अथवा मारे गये हों, उनको हानिके लिये दुःख प्रकट करते हुए विलाप करे। उनका हाथ पकड़कर धर्य दे। ऐसा करनेसे सब लोगोंकी सहानुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार जो सब अवस्थाओंमें साम आदि नीतियोंसे काम लेता है, वह धर्मज्ञ राजा सबका प्रिय होता है, उसको किसीसे भय नहीं रहता; सब प्राणी उसका विश्वास करने लगते हैं। विश्वासपात्र हो जानेपर वह इच्छानुसार राष्ट्रका उपभोग कर सकता है। अतः जो पृथ्वीका राज्य भोगना चाहता हो, उस राजाको चाहिये कि सबका विश्वास-भाजन बने और भूमण्डलकी सब ओरसे रक्षा करे।

कालकवक्षीय मुनिका उपदेश—राज्य, खजाना और सेना आदिसे वञ्चित हुए असहाय राजाका कर्तव्य

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! यदि राजा धर्मात्मा हो और उद्योग करते रहनेपर भी धन न पा सके, उस अवस्थामें मन्त्री उसे कष्ट देने लगे और उसके पास खजाना तथा सेना भी न रहे जाय तो सुख चाहनेवाले उस राजाको क्या करना चाहिये ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! तुम्हारे इस प्रश्नके उत्तरमें मैं राजकुमार क्षेमदर्शक इतिहासको दुहराता हूँ; तुम इसे ध्यान देकर सुनो। प्राचीन कालकी बात है, एक बार कौसलराजकुमार क्षेमदर्शक बड़ी कठिन विपत्तिका सामना करना पड़ा। उसकी सैनिकशक्ति नष्ट हो गयी। उस समय वह कालकवक्षीय मुनिके पास गया और उनके चरणोंमें प्रणाम करके उसने विपत्तिसे छुटकारा पानेका उपाय पूछा।

राजकुमारने कहा—ब्रह्मन् ! मनुष्य धनका भागीदार समझा जाता है। किन्तु मेरे-जैसा पुरुष बारंबार उद्योग करनेपर भी यदि राज्य न पा सके तो उसे क्या करना चाहिये ? आत्मघात करना, वीरता दिखाना, दूसरोंकी शरणमें जाना तथा इसी तरहके और भी खोटे काम करना तो मैं चाहता नहीं, इनके अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिये ? मेरे पास बहुत धन था, मगर सब सपनेकी सम्पत्तिकी तरह नष्ट हो गया। मेरी समन्तमें जो अपनी भारी सम्पत्तिका त्याग कर देते हैं, वे बड़ा मुश्किल काम करते हैं। मेरे पास तो अब धनके नामपर कुछ रहा ही नहीं, फिर भी उसका मोह नहीं छोड़ पाता। मैं राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट, दीन और अर्त

हूँ; इस शोचनीय अवस्थामें आ पड़ा हूँ। अब जिस उपायसे मुझे सुख और शान्ति नसीब हो, उसका मुझे उपदेश दीजिये।

कौसलराजकुमारके इस प्रकार पूछनेपर महातेजस्वी मुनिवर कालकवक्षीयने उन्हें यों उत्तर दिया—'राजकुमार ! तुम जिस किसी वस्तुको ऐसा मानते हो कि 'यह है' उसको पहलेसे ही समझ लो कि नहीं है। जो बुद्धिमान् ऐसी समझ रखता है, उसे कठिन-से-कठिन आपत्तिमें पड़नेपर भी शोक नहीं होता। जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदायके अधिकारमें रहे चुकी है तथा जो एकके बाद दूसरेकी होती आयी है; वह सब-को-सब तुम्हारी भी नहीं है—इस बातको अच्छी तरह समझ लेनेपर किसको चिन्ता होगी ? जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका नाश भी होता है; जो उत्पन्न हो चुकी है, वह वस्तु नष्ट भी होगी ही। शोकमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे नष्ट होनेसे बचा ले, ऐसी वशामें शोक करना व्यर्थ है। राजकुमार ! बताओ तो सही, तुम्हारे पिता आज कहाँ हैं ? तुम्हारे पितामह अब कहाँ चले गये ? आज तो न तुम उन्हें देखते हो, न वे तुम्हें देख पाते हैं। यह शरीर अनित्य है, इस बातको तुम भी समझते हो, फिर क्यों उन लोगोंके लिये शोक करते हो ? तनिक बुद्धिसे काम लेकर सोचो तो, एक दिन तुम भी नहीं रहोगे; मैं, तुम, तुम्हारे मित्र और शत्रु—इनमेंसे कोई भी रहनेवाला नहीं है, एक दिन सबका अन्त होना निश्चित है। आज जिनकी उम्र बीस और तीस वर्षोंकी है, वे सब आनेवाले सौ वर्षोंके पहले ही

इस बुनियाते उठ जायेंगे। ऐसी बरामें भी मनुष्य यदि बहुत बड़ी सम्पत्तिको छोड़ न सके तो कर्म-से-कर्म उसको ममताका तो त्याग कर दे। 'यह चीज मेरी नहीं है' ऐसा समझकर अपना कल्याण तो करे। जो वस्तु भविष्यमें मिलनेवाली हो, उसे यही माने कि 'यह मेरी नहीं है', तथा जो मिलकर नष्ट हो सकी हो, उसके विषयमें भी यही भाव रखे कि 'यह मेरी नहीं थी।' प्रारब्ध ही सबसे प्रबल है, यही देता है और वही छीन लेता है, ऐसी धारणा रखनेवाले मनुष्य ही विद्वान् हैं, उनका ही सत्यव्ययोंमें स्थान है।'

राजकुमारने कहा—मैं तो यही समझता हूँ कि सारा राज्य मुझे अनायास ही देबेच्छासे प्राप्त हो गया था और अब महाबली कासने यह सब-कुसब छीन लिया है। इसीलिये अब जहाँ जो कुछ मिल जाता है, उसीसे मैं अपना जीवन-निर्वाह कर रहा हूँ।

मुनिने कहा—राजकुमार ! यथायं तत्त्वका निरचय हो जानेपर मनुष्य किसी भी बातके लिये भ्रत और मन्त्रिको लेकर शोक नहीं करता। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिये। क्या तुम देववरा जो कुछ मिल जाय उससे उतने ही आनन्दके साथ रह सकोगे, जैसा पहले रहते थे ? आज राज्यवन्दीसे वञ्चित होनेपर भी क्या तुम शूद्र हृदयसे शोकका परित्याग कर दोगे ? पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोंके फलस्वरूप जब मनुष्यको भोग-सामग्री छिन जाती है तो अपनी दुर्बुद्धिके कारण यह विद्यताको कोसने लगता है और स्वतः प्राप्त हुए परिमित पदार्थोंसे उगे संतोष नहीं होता। संसारके मनुष्य प्रायः ईर्ष्या और अहंकारसे भरे होते हैं; किन्तु तुम तो ऐसे नहीं हो ? सहसा दूसरोंकी सम्पत्ति देख तुम्हारे मनमें बाह तो नहीं होती ? योगधर्मको जाननेवाले धर्मात्मा एवं धीर मनुष्य अपनी राज्यलक्ष्मी तथा पुत्र-पौत्रोंका भी स्वयं ही त्याग कर देते हैं। यद्यपि धन परम बुल्वंम है तथापि यह अस्थिर है, ऐसा समझकर साधारण मनुष्य भी इसका परित्याग कर देते हैं। परंतु तुम तो समझदार हो, तुम्हें मान्य है कि भोग प्रारब्धके अधीन और अस्थिर हैं, तो भी नहीं चाहने योग्य विषयोंको चाहते हो और उनके लिये ग्ल वीनता दिखते हुए शोक कर रहे हो ! भंया ! कामनाओंको छोड़ो और उस बुद्धिको जाननेका प्रयत्न करो, जिससे जीवका कल्याण होता है। जो तुम्हें व्ययंके

रूपमें प्रतीत हो रहे हैं, वे सब-के-सब अनर्थ ही हैं। तुम व्ययंको अनर्थक्य ही समझो। इन भोग-पदार्थोंके पीछे कितने ही लोगोंका सारा धन नष्ट हो जाता है। दूसरे लोग भोगजनित सुखको अक्षय मानकर उसके ही लिये धनको इच्छा करते हैं। कितने ही मनुष्य धन-सम्पत्तिमें इस तरह रम जाते हैं कि उन्हें उससे बढ़कर सुखका साधन और कुछ जान ही नहीं पड़ता। किन्तु बड़े कष्टसे कमाया हुआ उनका यह अमोघ धन यदि नष्ट हो जाता है तो उनके सम्मानका सारा किला ही बह जाता है। उस समय उन्हें धनसे वंदाय्य होता है। कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं, जो अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं और परलोकमें सुख पानेकी इच्छासे लौकिक भोगोंसे विरक्त हो धर्मकी शरण लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं, जो धनके लोभमें पड़कर अपने प्राणतक गंवा देते हैं; वे धनके सिवा जीविका दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं समझते। उनकी वीनता और मूर्खता तो देखो, जो इस अनित्य जीवनके लिये मोहवरा धनमें ही दुष्टि पड़ाये रहते हैं। संग्रहका अन्त विनासा है, जीवनका अन्त मरण है और संयोगका अन्त वियोग है—यह जानकर भी कौन इनमें अपना मन लगभगा ? राजन ! चाहे मनुष्य धनको छोड़ता है या धन मनुष्यको छोड़ देता है; एक-न-एक दिन ऐसा अवश्य होता है—इस बातको जानने-वाला कौन-सा मनुष्य है, जो धनके लिये चिन्ता करेगा ?

यह आपत्ति सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर नहीं आयी है, दूसरोंके भी धन और मित्र नष्ट होते हैं—ऐसा जानकर अपने मन, वाणी और इन्द्रियोंपर काबू रखो—धराराओ मत। तुम तो उत्तम ज्ञानसे परिपुत्र हो, तुम्हारे-जैसे ध्यक्षितको शोक नहीं करना चाहिये। तुम्हारे इच्छा बहुत छोड़ी है। तुममें चञ्चलताका बीज नहीं है, तुम्हारा हृदय कोमल और बुद्धि एक निरचयपर डटी रहनेवाली है तथा तुम जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी हो; तुम्हारे-जैसा मनुष्य शोक नहीं करता। तुम्हें कपटसे भरो हुई और शास्त्रके विशुद्ध बुद्धिका अग्रथ नहीं लेना चाहिये। क्रूरताका भी त्याग करना चाहिये। ये बड़ी ही दुष्टि और पापपूर्ण वृत्तियाँ हैं, कायर मनुष्य ही इनका आश्रय लेते हैं। तुम तो फल-मूल्यसे ही जीविका घसतते हुए अकेले धनमें विचरते रहो। वाणिको संयम करके मनको बशमें रखो और सम्पूर्ण प्राणियोंके हित-साधनमें लग जाओ। सबपर दया करो। जंगली फल-मूल्यसे ही संतुष्ट होकर जंगलोंमें अकेले विचरना ही विद्वान्के योग्य वृत्ति है।

कालकवृक्षीय मुनिका कूटनीति बतलाना और क्षेमदर्शीका राजा जनकसे मेल करा देना

मुनिने कहा—राजकुमार ! अब मैं तुम्हें राज्यकी शक्तिके लिये एक नीति बता रहा हूँ, यदि इसके अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें पुनः महान् राज्य प्राप्त हो सकता है । गण, क्रोध, हर्ष, भय और दम्भ छोड़कर शत्रुकी भी सेवा करो, उसके सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाओ । उत्तम तथा विशुद्ध व्यवहारसे उसका विश्वासपात्र बनो । विदेहराज जनक यद्यपि तुम्हारे शत्रु हैं तथापि यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर सकें तो तुम्हें बहुत-सा धन देगे; क्योंकि वे सत्यप्रतिज्ञ हैं । यदि ऐसा हुआ तो तुमको बहुत-से शुद्ध हृदयवाले, दुर्व्यसनसे रहित तथा उत्साही सहायक मिल जायेंगे । जो मनुष्य शास्त्रके अनुकूल आचरण करता हुआ अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें रखता है, वह अपना तो उद्धार करता ही है, राजाको भी प्रसन्न कर लेता है । राजा जनक बड़े धीर और नीसम्पन्न हैं, जब वे तुम्हारा सत्कार करेंगे तो सभी लोग तुमपर विश्वास करने लगेंगे । फिर तुम मित्रोंकी सेना एकट्ठी करना और अच्छे-अच्छे मन्त्रियोंसे सलाह लेना । इसके बाद शत्रुके शत्रुसे मिलकर शत्रुसेनाका विध्वंस करा डालना ।

अथवा अत्यन्त दुर्लभ उत्तम पदार्थों, स्त्रियों, ओढ़ने-बेछानेके सुन्दर वस्त्रों, अच्छे-अच्छे पलंग, आसन और सवारियों, बहुत धन खर्च करके बनवाये हुए महलों, तरह-तरहके रत्नों, सुगन्धित पदार्थों और फलोंमें शत्रुको आसक्त करो तथा उसमें भाँति-घाँतिके पशुओं और पंछियोंको पालनेका भी शौक पैदा करो; जिससे इन व्यसनोंमें अधिक धन खर्च करनेके कारण शत्रुकी आर्थिक शक्ति नष्ट हो जाय ।

बुद्धिमानोंके विश्वास-भाजन बनकर शत्रुके राज्यमें भ्रमण करो और कुत्ते, हिरन तथा कौओंकी तरह चौकन्ने रहकर मित्रघर्मका पालन करो । * शत्रुसे इतने बड़े-बड़े कार्य

* जैसे कुत्ते बहुत जागते हैं, उसी तरह शत्रुकी गति-विधिको देखनेके लिये बराबर जागता रहे । जिस प्रकार हिरन बहुत चौकन्ने होते हैं, जरा भी भयकी आशङ्का होते ही भाग जाते हैं, उसी तरह हर समय सावधान रहे, भय आनेके पहले ही वहाँसे खिसक जाय तथा जैसे कौए मनुष्यकी चेष्टा देखते रहते हैं, किसीको हाथ उठाते देख चुपचाप चड़े जाते हैं; इसी प्रकार शत्रुकी चेष्टापर सदा दृष्टि रखे ।

प्रारम्भ कराओ जिनका पूरा होना बहुत कठिन हो । बलवानोंके साथ उसका विरोध करा दो । बड़े-बड़े बगोचे, बहुमूल्य पलंग, बिछौने तथा भोग-विलासके अन्य कामोंमें खर्च कराकर सारा खजाना खाली करा दो । शत्रुका कोष क्षीण होते ही वह वशमें आ जाता है । हो सके तो बंदीको विश्वजित् यज्ञमें लगाकर उसके द्वारा दक्षिणारूपमें सबैतका दान करवा दो । इससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा । फिर किसी मोक्ष-धर्मके ज्ञाता पुरुषको बुलाकर शत्रुके समझ कुछ ऐसा उपदेश कराओ, जिससे वह राज्यके परित्यागकी इच्छा करे । यदि उसका शरीर नीरोग हो तो सिद्ध औषधका प्रयोग करके उसको मरवा डालो । उसके घोड़े, हाथी और मनुष्योंको भी कृत्रिम उपायोंसे मौतके घाट उतार दो । ये तथा और भी बहुतसे दम्भपूर्ण उपाय हैं, जिनसे बुद्धिमान मनुष्य शत्रुका सर्वनाश कर सकता है ।

राजकुमारने कहा—ब्रह्मन् ! मैं कपट और दम्भका आश्रय लेकर जीवित रहना नहीं चाहता । अधर्मसे मुझे बहुत बड़ी सम्पत्ति मिलती हो, तो भी मैं उसकी इच्छा नहीं करता । इन दुर्गुणोंका तो मैंने पहलेसेही त्याग कर दिया है, जिससे किसीका मुझपर संदेह न हो और मेरी तथा सबकी भलाई हो । क्रूरताका बर्ताव करके मुझे इस जगत्में जीवित रहनेकी इच्छा नहीं है । अतः मैं अधर्मका आचरण नहीं कर सकता और आपको भी ऐसा करनेके लिये मुझे उपदेश नहीं देना चाहिये ।

मुनिने कहा—राजकुमार ! तुम जैसा कहते हो, वैसे ही गुणोंसे युक्त भी हो । स्वभावसे ही तुम धर्मात्मा हो और बुद्धिके द्वारा तुम्हें बहुत बातोंका ज्ञान है । इसलिये तुम्हारे और राजा जनकके कल्याणके लिये अब मैं स्वयं ही यत्न करूँगा । अथवा तुम दोनोंमें ऐसा सम्बन्ध करा दूँगा जो स्वभाविक और चिरस्थायी होगा । तुम्हारा जन्म उच्च कुलमें हुआ है, तुम विद्वान्, दयालु तथा राज्यसंचालनकी कलामें निपुण हो, तुम्हारे-जैसे योग्य पुरुषको कौन अपना मन्त्री नहीं बनायेगा ? यद्यपि तुम्हें राज्यसे भ्रष्ट कर दिया गया है और तुम बहुत बड़ी विपत्तिमें फँस गये हो, तो भी तुमने क्रूरताको नहीं अपनाया, दयायुक्त बर्तावसे ही जीवन बिताना चाहते हो । इसलिये जब विदेहराज जनक मेरे आश्रमपर आयेंगे, उस समय उन्हें जो आज्ञा दूँगा, उसे वे निस्तविह पूर्ण करेंगे ।

इस प्रकार आरवासन देकर मुनिने राजा विदेहको अपने यहाँ बुलवाया और कहा—‘राजन् ! यह राजकुमार उच्च



वंशमें उत्पन्न हुआ है। इसकी अन्तरङ्ग बातोंसे भी मैं परिचित हूँ। इसका हृदय दर्पणके समान शुद्ध और स्वच्छ है; शरत्कालीन चन्द्रमाके सदृश उज्ज्वल है। मैंने हर तरह से इसकी परीक्षा कर ली है, इसके भीतर दुर्मात्रा का नाम नहीं है। इसलिये तुम इसके साथ संधि कर लो और मनुष्यर जैसा विश्वास करते हो वंसा ही इसपर भी करो। कोई भी राज्य मन्त्रीके बिना तीन दिन भी नहीं चलता जा सकता और मन्त्री शूरवीर एवं बुद्धिमान् पुरुषको ही बनाना चाहिये। धर्मात्मा राजाओंके लिये 'जगत्' में मन्त्रीके सिवा

दूसरा कोई संहारा नहीं है। यह राजकुमार महात्मा है, इसने सत्युपयोगके मार्गका आश्रय लिया है। यदि तुम धर्मको साक्षी देकर इसे सम्मानपूर्वक अपनाओगे तो यह तुम्हारे सब शत्रुओंको अपने अधीन कर लेगा। मेरी बात मानकर तुम युद्ध किये बिना ही इसे वशमें करो, मन्त्री बनाकर इसके हितसाधनमें लगे रहो। किसीकी भी जय या पराजय सदा नहीं रहती; इसलिये जैसे दूसरोंकी सम्पत्ति छीनकर स्वयं भोगते हो, वैसे ही दूसरोंको भी अपनी सम्पत्ति भोगने का अवसर देना चाहिये। जो दूसरोंका संहार करते हैं, उन्हें अपने संहार होनेका भी सदा ही भय बना रहता है।'

मुनिके इस प्रकार कहनेपर राजा जनकने उनका पूर्ण सम्मान किया और उनकी बातका अनुमोदन करते हुए कहा—‘मुनिवर ! आप महान् बुद्धिमान् हैं, आपने अनेकों शास्त्रोंका श्रवण किया है तथा आप सदा दूसरोंका कल्याण चाहते रहते हैं; अतः आपकी जो आज्ञा हो, उसे स्वीकार करनेमें हम दोनों की ही मलाई है। मेरे लिये जो-जो आज्ञा हुई है, वह सब पूर्ण करूँगा। यह तो मेरे परम कल्याणकी बात है, इसमें अन्यथा विचार करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है।'

तदनन्तर मिथिलानरेशने कोसलराजकुमारको पास बुलाकर कहा—‘राजन् ! मैंने धर्म और नीतिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण जगत्पर विजय पायी है। मगर आपने अपने गुणोंसे आज मुझे भी जीत लिया। अतः मैं आपका हृदयसे स्वागत करता हूँ; आप मेरे घर पधारें।’ इसके बाद दोनोंने मुनिकी पूजा की और फिर साथ ही घर गये। विदेहने कौसल्यको अपने महलमें ले जाकर पाठ, अध्ययन, आचमनीय तथा मधुपर्कसे उसका विधिवत् पूजन किया और उसके साथ अपनी पुत्रीका ब्याह कर दिया। दहेजमें नाना प्रकारके रत्न भी भेंट किये; यही राजाओंका परम धर्म है; उन्हें परस्पर भेल करके ही रहना चाहिये।

माता, पिता और गुरुकी सेवाका उपदेश, सत्य-असत्यकी पहचान तथा व्यावहारिक नीतिका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—भारत ! धर्मका रास्ता बहुत बड़ा है और उसकी अनेकों शालायें हैं; इनमेंसे किस धर्मको आप सबसे प्रधान एवं विशेषरूपसे आचरणमें लानेयोग्य समझते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मैं इहलोक और परलोकमें भी धर्मका फल पा सकूँगा।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! मैं तो माता, पिता तथा गुरुजनोंको पूजाको ही सबसे श्रेष्ठ धर्म समझता हूँ; इसका पालन करनेवाला मनुष्य पुण्यलोकोंपर तो विजय पाता ही है, इस संसारमें भी उसे महान् सुख प्राप्त होता है। माता, पिता और गुरुजन् जिस कामके लिये आज्ञा दें, वह धर्मके

अनुकूल हो या विरुद्ध, उसका पालन करना ही चाहिये। दूसरा कोई कार्य धर्मके अनुकूल हो तो भी उनकी आज्ञा न मिलनेपर उसे नहीं करना चाहिये। जिस कामके लिये उनकी आज्ञा हो, वह धर्म ही है; ऐसा निश्चय रखना चाहिये।

माता, पिता और गुरु—ये ही तीनों लोक हैं, ये ही तीनों आश्रम हैं, ये ही तीनों वेद हैं और ये ही तीनों अग्नि हैं। पिता गार्हपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आहवनीयाग्नि हैं। लौकिक अग्निधोसे माता-पिता आदि त्रिविध अग्निधोका गौरव अधिक है। इन तीनोंकी सेवामें यदि मूल न करोगे तो तुम तीनों लोकोंको जीत लोगे। पिताकी सेवासि इस लोकको, माताकी सेवासि परलोकको और गुरुकी सेवासि ब्रह्मलोकको तर जाओगे; इसलिये तुम इनके साथ सदा अच्छे बर्ताव करो। ऐसा करनेसे तुम्हें उत्तम यथा, परम कल्याण और महान् फल देनेवाले धर्मकी प्राप्ति होगी।

इन तीनोंकी आज्ञाका कमी उल्लङ्घन न करे। इनको भोजन करानेके पहले स्वयं भोजन न करे, इनपर कोई दोषारोपण न करे और सदा इनकी सेवामें संलग्न रहे—यही सबसे उत्तम पुण्य है। इसीके आचरणसे तुम कीर्ति, पवित्र यथा तथा उत्तम लोकोंपर विजय पाओगे। जिसने इन तीनोंका आदर किया उसने मानो सम्पूर्ण जगत्का आदर कर लिया और जिसके द्वारा इनका अनादर हुआ, उसके सम्पूर्ण शुभकर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जिसने इन तीनों गुरुजनोंका सम्मान नहीं किया, उसके लिये न यह लोक है न परलोक। न इस लोकमें यथा मिलता है न परलोकमें सुख। मैं तो सब तरहके शुभकर्मोंका अनुष्ठान करके इन गुरुजनोंकी ही अपेक्षा कर देता था; इससे उन कर्मोंका पुण्य सीगुना और हजारगुना बढ़ गया है तथा उसीका यह फल है कि आज तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने हैं।

दस श्रोत्रियोंसे बढ़कर है आचार्य (कुलगुरु या दीक्षा-गुरु)। दस आचार्योंसे बढ़ा है उपाध्याय (विद्यागुरु)। दस उपाध्यायोंसे अधिक महत्त्व रखता है पिता और दस पिताओंसे भी अधिक गौरव है माताका। माता तो सारी पृथ्वीसे भी बढ़कर है। उसके समान गौरव किसीका नहीं है। मगर मेरा विश्वास ऐसा है कि गुरु (आचार्य) का दर्जा माता-पितासे भी बढ़कर है। माता-पिता तो केवल इस शरीरको जन्म देते हैं, किंतु आत्मतत्त्वका उपदेश देनेवाले आचार्योंके द्वारा जो जन्म प्राप्त होता है, वह दिव्य है, अजर-अमर है। माता-पिता यदि कोई अपराध करें तो भी उनपर कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिये।

जो लोग विद्या पढ़कर गुरुका आदर नहीं करते, निकट रहते हुए भी मन, वाणी अथवा क्रियासे गुरुकी सेवा नहीं

करते, उन्हें गर्भस्य बालककी हत्याका पाप लगता है। संसारमें उनसे बढ़कर पापी दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे गुरुओंका कर्तव्य है शिष्योंको आत्मोन्नतिके पथपर पहुँचाना, उसी प्रकार शिष्योंका धर्म है—गुरुओंकी सेवा करना। मनुष्य जिस धर्मसे पिताको प्रसन्न करता है, उसके द्वारा प्रजापति ब्रह्माजी भी प्रसन्न होते हैं तथा जिस बर्तावसे वह माताको प्रसन्न कर लेता है, उसके द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वीकी पूजा हो जाती है। परंतु जिस व्यवहारसे शिष्य अपने गुरुको प्रसन्न कर लेता है, उसके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न होती है; इसलिये गुरु माता-पितासे भी बढ़कर पूज्य है। गुरुओंकी पूजासे देवता, ऋषि और पितरोंकी भी प्रसन्नता होती है, इसलिये गुरु परम पूजनीय है। माता, पिता और गुरु कभी भी अपमानके योग्य नहीं हैं, उनके किसी भी कार्यकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। गुरुजनोंके ही सत्कारकी देवता और महर्षि स्वीकार करते हैं। जो लोग मनसे अथवा क्रियाके द्वारा उपाध्याय, पिता और मातासे द्रोह करते हैं तथा जो पिता-माताके द्वारा अपना पालन-पोषण कराकर बड़े होनेपर उनका पालन-पोषण नहीं करते, उन्हें गर्भहत्याका पाप लगता है; जगत्में उनसे बढ़कर कोई पापी नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्त्रीहत्यापार और गुरुका वध करनेवाला—इन चार प्रकारके पापियोंका उद्धार करनेके लिये हमने कोई प्रायश्चित्त नहीं सुना है। अतः माता, पिता और गुरुकी सेवा ही मनुष्यके लिये सबसे बड़ा धर्म है, यही कल्याणका साधन है; इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है।

युधिष्ठिरने पूछा—भारत! जो मनुष्य धर्मके मार्गमें स्थित रहना चाहता हो, उसे कंसा बर्ताव करना चाहिये? सत्य और असत्यकी पहचान क्या है? कब सत्य बोलना चाहिये और कब असत्य? तथा धर्मका क्या लक्षण है?

भीष्मजीने कहा—राजन्! सत्य बोलना ही उत्तम है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मगर संसारके मनुष्य सत्य-असत्यको ठीक-ठीक समझ नहीं पाते, इसलिये यही वता रहा हूँ। जहाँ असत्यका परिणाम सत्य और सत्यका परिणाम असत्य होता हो वहाँ सत्य न बोलकर असत्य ही बोलना उचित है। ऐसे अवसरपर जो सत्य बोलता है, वह मूर्ख मारा जाता है। अतः परिणामके द्वारा सत्य-असत्यका निश्चय करके जो सत्य बोलता है, वही धर्मज्ञ है। जो अनार्य है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जो अत्यन्त कठोर स्वभावका है, वह मनुष्य भी कभी अंधे पशुको मारनेवाले बलाक नामक बहेलियोंकी तरह महान् पुण्य प्राप्त कर लेता है।*

प्राणियोंके अम्युदय और कल्याणके लिये ही धर्मको ब्याख्या की गयी है, जिससे इस उद्देश्यको सिद्धि होती हो, वही धर्म है। धर्मका नाम 'धर्म' इसलिये पड़ा है कि वह सबको धारण करता है—अधोगतिमें जानेसे बचाता और जीवनको रक्षा करता है; धर्मसे ही सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण कर रही है; अतः जिस कर्मसे प्राणियोंके जीवनको रक्षा हो, वही धर्म है—ऐसा निश्चय रखना चाहिये। जीवों की हिंसा न हो, इसके लिये ही धर्मका उपदेश किया गया है, अतः जो कर्म अहिंसासे युक्त हो, वही धर्म है।

यदि चोर किसी धनीका धन लूटनेकी इच्छासे उसका पता पूछते हों और न बतातेसे उस धनीका बचाव हो जाता हो तो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिये। किन्तु यदि नहीं बतातेपर चोरोंके मनमें सदेह होता हो और इसके लिये कुछ-कुछ बताना आवश्यक हो जाय तथा शपथ खानेसे भी पापियोंके हाथसे छुटकारा मिलता हो तो वहाँ सत्यको अपेक्षा असत्य बोलना ही अच्छा है। ऐसे अवसरके लिये शास्त्रकारोंने यही विचार किया है। अपनी शक्ति रहते पापियोंकी धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापात्माओंको दिया हुआ धन दाताको ही कष्टमें डालता है। जो कर्जदारको अपने अधीन करके—उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावेको ही सही साबित करनेके लिये यदि कुछ लोगोंको गवाही देनी पड़े और वे गवाह कहने योग्य सत्य बातको छिपा सें तो वे सब-के-सब मिथ्यावादी

होते हैं। किन्तु प्राणियोंके अम्युदय और कल्याणके लिये ही धर्मको ब्याख्या की गयी है, जिससे इस उद्देश्यको सिद्धि होती हो, वही धर्म है। धर्मका नाम 'धर्म' इसलिये पड़ा है कि वह सबको धारण करता है—अधोगतिमें जानेसे बचाता और जीवनको रक्षा करता है; धर्मसे ही सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण कर रही है; अतः जिस कर्मसे प्राणियोंके जीवनको रक्षा हो, वही धर्म है—ऐसा निश्चय रखना चाहिये। जीवों की हिंसा न हो, इसके लिये ही धर्मका उपदेश किया गया है, अतः जो कर्म अहिंसासे युक्त हो, वही धर्म है। यदि चोर किसी धनीका धन लूटनेकी इच्छासे उसका पता पूछते हों और न बतातेसे उस धनीका बचाव हो जाता हो तो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिये। किन्तु यदि नहीं बतातेपर चोरोंके मनमें सदेह होता हो और इसके लिये कुछ-कुछ बताना आवश्यक हो जाय तथा शपथ खानेसे भी पापियोंके हाथसे छुटकारा मिलता हो तो वहाँ सत्यको अपेक्षा असत्य बोलना ही अच्छा है। ऐसे अवसरके लिये शास्त्रकारोंने यही विचार किया है। अपनी शक्ति रहते पापियोंकी धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापात्माओंको दिया हुआ धन दाताको ही कष्टमें डालता है। जो कर्जदारको अपने अधीन करके—उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावेको ही सही साबित करनेके लिये यदि कुछ लोगोंको गवाही देनी पड़े और वे गवाह कहने योग्य सत्य बातको छिपा सें तो वे सब-के-सब मिथ्यावादी

होते हैं। किन्तु प्राणियोंके अम्युदय और कल्याणके लिये ही धर्मको ब्याख्या की गयी है, जिससे इस उद्देश्यको सिद्धि होती हो, वही धर्म है। धर्मका नाम 'धर्म' इसलिये पड़ा है कि वह सबको धारण करता है—अधोगतिमें जानेसे बचाता और जीवनको रक्षा करता है; धर्मसे ही सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण कर रही है; अतः जिस कर्मसे प्राणियोंके जीवनको रक्षा हो, वही धर्म है—ऐसा निश्चय रखना चाहिये। जीवों की हिंसा न हो, इसके लिये ही धर्मका उपदेश किया गया है, अतः जो कर्म अहिंसासे युक्त हो, वही धर्म है। यदि चोर किसी धनीका धन लूटनेकी इच्छासे उसका पता पूछते हों और न बतातेसे उस धनीका बचाव हो जाता हो तो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिये। किन्तु यदि नहीं बतातेपर चोरोंके मनमें सदेह होता हो और इसके लिये कुछ-कुछ बताना आवश्यक हो जाय तथा शपथ खानेसे भी पापियोंके हाथसे छुटकारा मिलता हो तो वहाँ सत्यको अपेक्षा असत्य बोलना ही अच्छा है। ऐसे अवसरके लिये शास्त्रकारोंने यही विचार किया है। अपनी शक्ति रहते पापियोंकी धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापात्माओंको दिया हुआ धन दाताको ही कष्टमें डालता है। जो कर्जदारको अपने अधीन करके—उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावेको ही सही साबित करनेके लिये यदि कुछ लोगोंको गवाही देनी पड़े और वे गवाह कहने योग्य सत्य बातको छिपा सें तो वे सब-के-सब मिथ्यावादी

दुःखोंसे छूटनेका उपाय और मनुष्यके स्वभावकी पहचानके लिये व्याघ्र तथा शिवायकी कथा

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! जगत्के जीव भिन्न-भिन्न भावोंको लेकर नाना प्रकारके कष्ट उठा रहे हैं; अतः जिस उपायके द्वारा इन दुःखोंसे छुटकारा हो सके, उसे बतानेकी कृपा कीजिये।

भीष्मजीने कहा—राजन्! जो द्विज वरने बन्दे यशमें करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमोंमें रहते हूँ उनके अनुसार ठीक-ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुःखोंसे पार हो जाते हैं। जो दम्भ नहीं करते, जिनकी जीविका निर्दिष्ट है, वे विषयोंकी ओर बढ़ती हुई इच्छाओंसे रोकते हैं, इनके कष्ट-वचन सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं देने, नार शुकक की किसीकी मारते नहीं, स्वयं देते हैं पर दूसरोंके कर्मोंके अतिशयियोंको सदा आश्रय देते हैं, कभी किसीकी निन्दा नहीं करते, नित्य नियमपूर्वक स्वाध्याय करते हैं, इनके बचने

हैं, मत्तन्पितादौ सेवामं तपो रूडे है तथा निरन्ते हने गी, वे दुःखोंसे छुटकारा पा जाते हैं।

बो मन, बानो और कन्ति कको मर गये काने, किसीकी बिनको कष्ट नहीं पहुँचाते, राजा होकर सौम्य प्रभावका इन नहीं लेते और देगदी सब काने खा काने हैं, उन्हें कको दुःख नहीं उठाना पड़ता। जो अपने ही कर्मोंके फल उन्मुक्त मनाने करते हैं तथा जो अपने कर्मोंके फल उन्मुक्त मनाने करते हैं तथा जो अपने कर्मोंके फल उन्मुक्त मनाने करते हैं, वे दुःख नहीं उठाने। जिनके कर्मोंके फल उन्मुक्त मनाने करते हैं, वे दुःख नहीं उठाने। जिनके कर्मोंके फल उन्मुक्त मनाने करते हैं, वे दुःख नहीं उठाने।

तपस्यामें लगे रहते हैं, वचनसे ही ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और वेद, विद्या तथा व्रतमें निष्णात होते हैं, जिनके रजोगुण और तमोगुण शान्त हो गये हैं, जिनकी सदा सत्त्वगुणमें स्थिति रहती है, जिनसे दूसरे प्राणियोंको भय नहीं होता तथा जो दूसरे प्राणियोंसे स्वयं भय नहीं करते और सम्पूर्ण जगत्को आत्माके समान देखते हैं, वे कठिन-से-कठिन विपत्तिके भी पार हो जाते हैं।

परायी सम्पत्ति देखकर जिनके मनमें जलन नहीं होती, जो सत्यरूप हैं और ग्राम्य विषय-भोगोंसे दूर रहते हैं, जो सब देवताओंको प्रणाम करते तथा सब धर्मोंको सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शान्ति विद्यमान है, जो स्वयं आदर नहीं चाहते और दूसरोंका आदर करते हैं, जिनमें अपने क्रोधको रोक लेनेकी शक्ति है, जो दूसरोंका भी क्रोध शान्त कर देते हैं और कभी किसीपर कोप नहीं करते, वे सब प्रकारके दुःखोंसे पार हो जाते हैं। जो जन्मकालसे ही मधु-मांस और मदिराका सेवन नहीं करते, जो स्वादके लिये नहीं जीवनकी रक्षाके लिये भोजन करते हैं, विषय-वासनाकी तृप्तिके लिये नहीं संतानकी इच्छा से मंथनमें प्रवृत्त होते हैं, जो सत्य बात बतानेके लिये ही बोलते हैं और सम्पूर्ण प्राणियोंके अधीश्वर भगवान् नारायणकी भक्ति करते हैं, वे दुस्तर दुःखों से भी पार हो जाते हैं। नारायणकी शरण लेनेवाले भक्त दुःखोंसे मुक्त हो जाते हैं—इसमें संदेहके लिये गुंजाइश नहीं है। और तो क्या, यह प्रसङ्ग (अध्याय) भी दुःखोंसे तारनेवाला है, जो लोग इसे पढ़ते या ब्राह्मणोंके मुखसे सुनते हैं, वे दुःखोंसे छूट जाते हैं। इस प्रकार यहाँ संक्षेपसे मनुष्योंके लिये वह फलव्यं बतयाया गया है, जिससे वे इस लोकमें और परलोकमें भी विपत्तिके बन्धनसे छुटकारा पा जाते हैं।

युधिष्ठिरने पूछा—तात ! बहुत-से कठोर स्वभाववाले मनुष्य ऊपरसे कोमल और शान्त बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाववाले लोग कठोर दिखायी देते हैं; ऐसे मनुष्योंकी ठीक-ठीक पहचान कैसे हो ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें एक पुराणा इतिहास, जो वाघ और सियारके संवादके रूपमें है, तुम्हें सुना रहा है, सुनो—पूर्वकालकी बात है, पुरिका नामकी एक नगरी थी, जो प्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न थी। उसमें पौरिक नामका एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही क्रूर और नीच था। सदा दूसरे प्राणियोंकी हिंसामें लगा रहता था। धीरे-धीरे उसकी आयु समाप्त हुई। मरनेके बाद अपने पूर्व कर्मोंके कारण उसका सियारकी योनिमें जन्म हुआ। किंतु उसे पूर्वजन्मका भी स्मरण बना रहा; इसलिये उस अघम योनिमें पूर्व वंशव की याद आनेसे सियारको बड़ा

खेद और वरगम्य हुआ। अब उसने जीवोंकी हिंसा करना छोड़ दी, सत्य बोलनेका नियम लिया और वह अपने व्रतका बृहता-पूर्वक पालन करने लगा। दिन-रातमें एक बार निश्चित समयपर भोजन करता और वह भी पेड़ोंसे अपने-आप गिरे हुए फलोंका। उसने श्मशान-भूमिमें ही रहना पसंद किया; क्योंकि वहाँ उसका जन्म हुआ था। जन्मभूमिके स्नेहसे किसी दूसरे स्थानपर उसका मन नहीं लगता था।

सियारका इस तरह पवित्र आचार-विचारसे रहना उसके जाति-भाइयोंको अच्छा न लगा, उनके लिये यह बरदाशतके बाहरकी बात हो गयी। इसलिये वे प्रेम और विनयभरी बातें सुनाकर उसकी बुद्धिको चलायमान करने लगे। उन्होंने कहा—भाई सियार ! तू मांसाहारी जीव है और श्मशान-भूमिमें रहता है, फिर भी पवित्र आचार-विचारसे रहना चाहता है, यह तेरी उलटी समझका परिणाम है। भैया ! हमारे ही समान होकर रह, तेरे लिये भोजन हमलोग ला दिया करेंगे, तू सिर्फ इस शौचाचारका अड़ंगा छोड़कर चुपचाप खा लिया करना। तेरी जातिका जो सदासे भोजन रहा है, वही तेरा भी होना चाहिये।

उनकी ऐसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया और मीठे तथा युक्तियुक्त वचनोंसे उन्हें समझाता हुआ बोला—'बन्धुओ ! अपने बुरे व्यवहारोंके ही कारण हमारी जातिका कोई विश्वास नहीं करता, अच्छे स्वभाव और आचरणसे ही कुलकी प्रतिष्ठा होती है, अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ, जिससे अपने वंशका यश बढ़े। यदि मेरा निवास श्मशान-भूमिमें है, तो इसके लिये मैं जो समाधान देता हूँ, उसको सुनो—आश्रम (कुटी) बनाकर रहना ही धर्ममें कारण हो, ऐसी बात नहीं है, कोई भी शुभकर्म आत्माकी प्रेरणासे ही होता है। आश्रममें रहकर ही यदि कोई गौकी हत्या करे तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा ? अथवा आश्रमसे अलग श्मशान आदि स्थानोंमें ही यदि कोई गोदान करे तो क्या वह व्यर्थ हो जायगा ? उससे पुण्य नहीं होगा ? तुमलोगोंकी जीविका असंतोषसे पूर्ण, निन्दनीय, धर्मकी हानिके कारण दूषित तथा इस लोक और परलोकमें अनिष्ट फल देनेवाली है, इसलिये मैं उसे पसंद नहीं करता।'

सियारके इस आचार-विचारकी चर्चा चारों ओर फैल गयी। तदनन्तर एक व्याघ्रने स्वयं आकर उसका विशेष सम्मान किया और उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान् समझकर अपना मन्त्रित्व स्वीकार करनेके लिये उससे प्रार्थना की।

व्याघ्र बोला—सौम्य ! मैं तुम्हारे स्वरूपसे परिचित हूँ, तुम मेरे साथ चलकर रहो और मनमाने भोग भोगो। एक बात तुम्हें सूचित कर देते हैं, हमारी जातिका स्वभाव

कठोर होता है—यह दुनिया जानती है। यदि तुम कोमलता-पूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित-साधनमें लगे रहोगे तो तुम्हारा भी भला होगा।

सियारने कहा—मृगराज। आपने मेरे लिये जो बात कही है, वह सर्वथा आपके पोषण है तथा आप जो धर्म और अर्थ-साधनमें कुशल एवं शुद्ध स्वभाववाले सहायक दूँद रहे हैं—यह भी उचित ही है। महाभाग। इसके लिये आपको चाहिये कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जिन्हें नीतिका ज्ञान हो, जो संधि करानेमें कुशल, विनयाभिलाषी, लोभ-रहित, बुद्धिमान्, हितैषी तथा उदार हृदयवाले हों—ऐसे व्यक्तियोंको सहायक बनाकर पिता और गुरुके समान उनका आदर करें। आप मेरे लिये जो सुविधाएँ दे रहे हैं, उनकी मुझे इच्छा नहीं है। मैं सुख, भोग तथा उनके आधारभूत ऐश्वर्यको नहीं चाहता। आपके पुराने नौकरोंके साथ मेरा स्वभाव भी नहीं मिलेगा। वे दुष्ट प्रकृतिके जीव हैं, आपको मेरे विषय में बड़काया करेंगे। उनका प्रताप बड़ा हुआ है अतः उनको मेरे अधीन होकर रहना अच्छा नहीं भासूँगा होगा। इधर मेरा स्वभाव भी कुछ विलक्षण है, मैं पापियों-पर भी कठोरताका बर्ताव नहीं करता। दूरतककी बात सोचता हूँ। मेरा उत्साह कभी कम नहीं होता। मूर्खमें बलकी मात्रा भी अधिक है। मैं स्वयं कृतार्थ हूँ और प्रत्येक कार्य सफलताके साथ कर सकता हूँ। किसीको सेवा-उल्लेख तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। स्वच्छन्दतापूर्वक वनमें विचरता रहता हूँ। मेरे-जैसे वनवासियोंका जीवन आसक्तिरहित और निर्भय होता है। एक जगह बैसटके पानी मिलता हो और दूसरी जगह भय देनेवाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता हो—इन दोनोंको यदि विचार करके देखता हूँ तो मुझे बहाँ ही सुख जान पड़ता है, जहाँ कोई भय नहीं है। राजाके पास रहनेमें सदा भय-ही-भय है। राजनेवकीमेंसे जितने लोग दूसरोंके लगामें हुए मूठे कत्तकके कारण राजाके हाथ से मारे गये हैं, उतने सच्चे अपराधीके कारण नहीं। मृगराज। यदि मुझे मन्त्रित्वका कार्य लेना ही हो तो मैं आपसे एक शर्त कराना चाहता हूँ, उसीके अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना पड़ेगा। 'मेरे आत्मीय व्यक्तिमोका आप सम्मान करें, उनकी हितकारिणी बातें सुनें। मैं आपके दूसरे मन्त्रियोंके साथ कभी परामर्श नहीं करूँगा। एकान्तमें सिर्फ आपके साथ अकेला ही मिलूँगा और आपके हितकी बातें बताया करूँगा। आप भी अपने जाति-भाइयोंके कामोंमें मुझे हिताहितकी बात न प्रकृतियेगा। मुझे सलाह करनेके बाद यदि आपके पहलेके मन्त्रियोंकी भूल भी साबित हो तो उन्हें प्राणदण्ड न दीजियेगा

तथा कभी घोरमें आकर मेरे आत्मीय जनोपर भी प्रहार न कीजियेगा।'

शोरने 'ऐसा ही होगा' कहकर सियारका बड़ा आदर किया। सियारने भी उसका मन्त्री होना स्वीकार कर लिया। फिर तो उसका बड़ा स्वागत-सत्कार होने लगा। प्रत्येक कार्यमें उसकी प्रशंसा होने लगी। यह सब देख-सुनकर पहलेके सेवक और मन्त्री जल-भुन गये। सब उसके साथ द्वेष करने लगे। उनके मनमें दुष्टता भरी थी, इसलिये वे झुंड बाँधकर बारंबार सियारके पास आते और अपनी मित्रता जताते हुए उसको समझा-बुझाकर अपने ही समान बोयी बनानेकी कोशिश करते थे। सियारके आनेसे पहले उनकी रहन-सहन कुछ और ही थी। दूसरोंकी वस्तु छीनकर स्वयं उसका उपभोग करते थे। किन्तु अब उनकी दास नहीं गलती थी, वे किसीका भी धन लेनेमें असमर्थ थे; क्योंकि सियारने उनपर बड़ी कड़ी पाबन्दी लगा रखी थी। वे चाहते थे सियार भी द्वेष जाय, इसलिये तरह-तरहकी बातोंमें उसे फुसलते और बहुत-सा धन देनेका सोम दिखाते थे।

मगर सियार बड़ा बुद्धिमान् था, वह उनके चर्चामें नहीं आया—उसने धैर्य नहीं छोड़ा। तब उन नौकरोंने उसका पासा करनेकी शपथ खायी और सब मिलकर इसके लिये प्रयत्न करने लगे। एक दिन उन्होंने, शोरके खानेके लिये जो मांस तैयार करके रखा गया था, उसे उसके स्थान से घुरा लिया और सियारकी मदमें से जाकर रख दिया। सियारने मन्त्री-द्वयपर आते समय शोरसे पहले ही ठहरा लिया था कि 'राजन्।' यदि तुम मुझे मित्रता चाहते हो तो किसीके बहकावमें आकर मेरा विनाश न करना।'

उधर शोरको जब मूज लगी और वह भोजनके लिये उठा तो उसके खानेके लिये रक्खा हुआ मांस नहीं दिखायी पड़ा। शोरने चोरका पता लगातेके लिये नौकरोंकी आत्मा दी। तब जिनको यह करदूत थी, उन्होंने लोभमें शोरसे उस पासके बारेमें बताया—'महाराज। अपनेको बड़ा बुद्धिमान् और पण्डित माननेवाले सियार महीदयने ही आपके मांसका अपहृण किया है।' सियारकी यह चपलता सुनकर शोर गुस्सेमें मर गया और उसको मार डालनेका विचार करने लगा। उस समय सियारके प्रतिफल कुछ कहनेका मौका देखकर पहलेके मन्त्री लोग शोरसे कहे लगे—'राजन्। वह तो बातोंमें ही धमपिया बना हुआ है, स्वभावका बड़ा कुटिल है। भीतरका पापी है, मगर ऊपरसे धर्मका ढोंग बनाये हुए है। उसका सारा आचार-विचार दिखावोंके लिये है।' यह कहकर वे क्षणभरमें ही उस मांसको सियारकी मदसे उठा

ले आये। शेरने उनकी बातें सुनीं और जब निश्चय हो गया कि सियार ही मांस ले गया था तो उसने उसको मार डालनेकी आज्ञा दे दी।

शेरकी यह बात जब उसकी माताको मालूम हुई तो वह हितकारी चर्चनोंसे उसे समझानेके लिये आयी और कहने लगी—'बेटा! इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यन्त्र हुआ जान पड़ता है। तुम्हें इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये। काममें लाग-डॉट हो जानसे जिनके मनमें पाप होता है वे निर्दोषको ही बोयी धनाते हैं। किसीको अपनेसे ऊँची अवस्थामें देखकर अक्सर लोभोंको ईर्ष्या हो जाया करती है, वे उसकी उन्नति नहीं सह सकते। फोर्ड कितना ही मुझ पयों न हो, उसपर भी दोष लगा ही देते हैं। लोभी शूद्र स्वभाववाले व्यक्तिपोंसे और आत्सरी तपस्वियोंसे द्वेष करते हैं। इसी प्रकार मूखलोग पण्डितोंसे, दरिद्र धनिपोंसे, पापी धर्मात्माओंसे और कुरूप प्यवानोंसे शत्रु रखते हैं। विद्वानोंमें भी कितने ही ऐसे अविद्येकी, लोभी और कपटी होते हैं, जो घृहस्पतिके समान मुझि रखनेवाले निर्दोष व्यक्तिमें भी दोष निकाला करते हैं। एक ओर तो जब घरमें सुनसान था, उस समय तुम्हारे मांसकी चोरी हुई है, दूसरी ओर एक प्यवित ऐसा है, जो वेनेपर भी मांस नहीं लेना चाहता—इन दोनों बातोंपर अच्छी तरह विचार करो। संसारमें बहुतसे असभ्य प्राणी सभ्यकी तरह और सभ्य असभ्यकी तरह देखे जाते हैं, इस प्रकार उनमें अनेकों भाव दृष्टिगोचर होते हैं, अतः उनकी परीक्षा कर लेनी उचित है। आपका भाग औंधी फड़ाहीके समान और जुगनू अग्निके समान विश्वासी देते हैं; किंतु न तो आपकाशमें फड़ाही है और न जुगनूमें आग ही है, इसलिये रामने विलायी देती हुई धरतुकी भी जांच करनी चाहिये। जो जांचने-बूझनेके घाद किसी विषयमें अपना विचार प्रकट करता है, उसे पीछे पछताया नहीं होता। राजाके लिये किसीको मर्या डालना फठिन काम नहीं है, मगर इससे उसकी चढ़ाई नहीं होती। भवितशाली पुत्रयमें यदि क्षमा हो तो उसीकी प्रशंसा की जाती है, उसीसे उसका यम चढ़ता है। बेटा! सोचो तो, तुमने स्वयं ही सियारको मन्त्रीके आसनपर बिठाया है और तुम्हारे सामन्तोंमें भी इसकी एपाति घड़ गयी है। ऐसा सुपात्र मन्त्री बड़ी मुश्किलसे मिलता है, यह तुम्हारा बड़ा हितवीपी है; इसलिये तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिये। जो दूसरोंके मिथ्या कालंक लगानेपर निर्दोषको भी अपराधी मानकर घण्ट देता है, वह राजा बुद्ध मन्त्रियोंके साथ रहनेके कारण शीघ्र ही मौतके मुलामें पड़ता है।'

शेरकी माता इस प्रकार उपदेश दे ही रही थी कि उर

शयसमूहके भीतरसे एक धर्मात्मा व्यक्ति उठकर शेरके पास आया। वह सियारका जासूस था। उसने, जिस प्रकार यह कपटलीला की गयी थी, उसका भंडाफोड़ कर दिया। इससे शेरको सियारकी सच्चरित्रताका पता चल गया और उसने मन्त्रीका सत्कार करके उसको इस अभियोगसे मुक्त कर दिया तथा अत्यन्त स्नेहके साथ उसे बारंबार गलेसे लगाया।

सियार नीतिशास्त्रका ज्ञाता था, उसने शेरकी आज्ञा लेकर उपवास करके प्राण त्याग देनेका विचार किया। शेरने उसे इस कार्यसे रोका और उसका भलीभाँति आबर-सत्कार किया। उस समय स्नेहके कारण उसका चित्त विकल हो रहा था। मालिककी यह अवस्था देख सियारका भी गला भर आया और वह उसे प्रणाम करके गव्गब-कण्ठसे बोला—'राजन्! पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया, शत्रुकी-सी स्थितिमें पहुँचा दिया। अब मैं आपके पास रहनेके योग्य नहीं हूँ। जो अपने पदसे हटाये गये हों, सम्मानित स्थानसे नीचे गिरा विभे गये हों, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो बुबंल, लोभी, क्रोधी और डरपोक हों, जिन्हें धोखेमें डाला गया हो, जिनका धन जूटा गया हो तथा जिन्हें क्लेश दिया गया हो—ऐसे सेवक शत्रुओंका काम सिद्ध करते हैं। आपने परीक्षा लेकर योग्य समझकर मुझे मन्त्रीके आसनपर बिठाया था और फिर अपनी की हुई प्रतिज्ञाको तोड़कर मेरा अपमान किया है। ऐसी बशामें अब आपका मुझपर विश्वास नहीं रहेगा और मैं भी आपपर विश्वासा न होनेसे उद्वेगमें पड़ा रहूँगा। आप मुझपर संदेह करने और मैं सदा आपसे डरता रहूँगा। इधर, दूसरोंके दोष बूझनेवाले आपके मृत्युलोग मौजूब ही हैं, इनका मुझसे तनिक भी स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिये बहुत फठिन है। प्रेमका बन्धन जब एक बार टूट जाता है तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है और जो जुड़ा हुआ होता है वह बड़ी फठिनाईसे टूटता है। किंतु जो बारंबार टूटता और जुड़ता रहता है, उसमें स्नेह नहीं होता। राजाओंका चित्त चञ्चल होता है, उनके लिये सुयोग्य व्यक्तिको पहचानना बहुत फठिन है। संकड़ोंमें कोई एक ही ऐसा मिलता है, जो सब तरहसे समर्थ हो और किसीपर भी संदेह न करता हो।'

इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम तथा युक्तियोंसे युक्त सान्त्वनापूर्ण चर्चन फहकर सियारने शेरको प्रसन्न किया और फिर स्वयं वनमें चला गया। वह बड़ा बुद्धिमान् था, इस-लिये शेरकी अनुनय-विनय न मानकर मृत्युपर्यन्त निराहार रहनेका प्रत ले एक स्थानपर बंठ गया और अन्तमें शरीर त्याग कर स्वर्गधाममें जा पहुँचा।

शक्तिशाली शत्रुके सामने नम्र होने और मूर्खकी बातोंको अनुसुनी करनेका उपदेश तथा राजा और राजसेवकोंके गुणोंका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—भरतधेष्ठ ! राजा एक दुर्लभ राज्यको पाकर भी यदि सेना-सज्जाना आदि साधनोंसे रहित हो तो वह अपनेसे बलमें सर्वथा बड़े-बड़े हुए शत्रुके सामने कैसे टिक सकता है ?

भीष्मजीने कहा—इस विषयमें समुद्र और नदियोंके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । एक समयको बात है, सरिताओंके स्वामी समुद्रने सरिताओंसे अपने मनका एक संदेह इस प्रकार पूछा—'नदियों ! मैं देखता हूँ, जब तुमलोगोंमें याद आती है तो बड़े-बड़े घुसोंको



जड़-मूल और बालियोंसहित उखाड़कर तुम अपने प्रवाहमें बहा सती हो, किंतु उनमें बेंतका कोई पेड़ नहीं दिलायी देता । बेंतका शरीर तो नहींके बराबर—बहुत पतला होता है, उसमें कुछ दम भी नहीं होता और वह तुम्हारे खात किनारेपर जमता है; फिर भी तुम उसे न ला सकीं । क्या कारण है ? उसे कमजोर समझकर उपेक्षा तो नहीं कर देतीं ? अथवा उसने तुमलोगोंका कुछ उपकार तो नहीं किया है ? क्यों

बेंतका वृक्ष तुम्हारा तट छोड़कर नहीं आता ? इस विषयमें मैं तुम सब लोगोंका विचार जानना चाहता हूँ ।'

यह सुनकर गङ्गाजीने युक्तिपुस्त, अर्घ्यपूर्ण तथा विलमें बंठनेवाली बात कही—'नाय ! वे वृक्ष अपने स्थानपर अकड़कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रबल प्रवाहके सामने सिर नहीं झुकाते, इस प्रतिकूल बर्तावके कारण ही उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है । किंतु बेंत नदीके वेगको देखकर झुक जाता है, वह समयके अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़कर खड़ा नहीं होता; अतः अपने अनुकूल आचरणके कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता । जो पीदे, घुस या सता-गुल्म आदि हया और पानीके वेगसे झुक जाते तथा वेग शान्त होनेपर सिर उठाते हैं, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता ।'

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इसी प्रकार जो राजा बलमें बड़े-बड़े तथा विनाश करनेमें समर्थ शत्रुके पहले वेगको सिर झुकाकर नहीं सह सेंता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । जो बुद्धिमान् अपने तथा शत्रुके सार, असार, बल और पराक्रमको जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती । अतः जब शत्रुको बलमें अपनेसे बहुत बड़ा हुआ समझे तो विद्वान् पुरुषको बेंतकी तरह नम्र हो जाना चाहिये । यही बुद्धिमानोंका लक्षण है ।

युधिष्ठिरने पूछा—भारत ! यदि कोई घृष्ट मूर्ख मधुर या तीखे शब्दोंमें भरी सभके बीच किसी विद्वान् पुरुषको निन्दा करे तो विद्वान्को उसके साथ कंसा बर्ताव करना चाहिये ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! जो निन्दा करनेवालेके ऊपर क्रोध नहीं करता, वह उसके पुण्यको ले सेंता और अपने पाप धो डालता है । इसलिये कटु वचन बोलनेवालेको आवुर समझकर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये । वह मूर्ख तो पापकर्म करके अपनी तारीफ करते हुए सदा यही कहता है कि 'मैंने अमुक भले आदमीको भरी सभामें ऐसी-ऐसी बातें सुनायीं कि वह लाजसे गड़ गया, उसका मुँह सूख गया और अब वह भरा हुआ-सा हो रहा है ।' इस प्रकार निन्दनीय कर्मका उल्लेख करके यह अपनी प्रशंसा करता है और तनिक भी तजता नहीं है । ऐसे मीच पुरुषकी पत्तनपूर्वक उपेक्षा करनी चाहिये । मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वान्को वह सब सह सेंना चाहिये

जंगलमें कौआ व्यर्थ ही काँय-काँय किया करता है, उसी तरह मूल्य मनुष्य भी अकारण ही निन्दा करता है और अपने अनुचित आचरण एवं चेष्टाओंसे अपनी असलियतमें संदेह पैदा करता है। संसारमें जिसके लिये कुछ भी कह देना या कर डालना असम्भव नहीं है, ऐसे मनुष्यसे बात ही नहीं करनी चाहिये। जो सामने गुण गाता और परोक्षमें निन्दा करता है, वह तो कुत्तेके समान है; उसके इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो चुके हैं; इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि ऐसे पापीका तुरंत त्याग कर दे।

युधिष्ठिरने कहा—दादाजी ! अब मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि जिससे राज्यका हित हो, जो वर्तमान तथा भविष्यमें कल्याण और अभ्युदय करनेवाला हो तथा जिससे राष्ट्रकी उन्नति हो, वह उपाय मुझे बताइये; क्योंकि आप तथा महाबुद्धिमान् विदुरजी ही हमारे वंशके हितमें लगे रहकर सदा राजधर्मका उपदेश देते रहते हैं। राजा अकेला ही सारे राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; इसलिये उसके पास कैसे और किन गुणोंवाले सेवक रहने चाहिये ?

भौष्मजीने कहा—वेदा ! कोई भी सहायकोंके बिना अकेले राज्य नहीं चला सकता; राज्य ही क्या, सहायताके बिना किसी भी अर्थकी प्राप्ति नहीं होती। यदि प्राप्ति हो भी गयी तो उसकी रक्षा असम्भव हो जाती है; अतः सेवकोंका होना आवश्यक है। जिसके सभी सेवक ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न, हितैषी, कुलीन तथा प्रेमी हों, उसी राजाको राज्यका सुख मिलता है। जो कुलीन हों, जिन्हें धनका लोभ दिखाकर शत्रु फोड़ न सकें, जो राजाके साथ रहते और उन्हें अच्छी दुष्टि देते हों, जो अच्छे स्वभावके हों और भविष्यका प्रबन्ध करनेवाले, समयको जाननेवाले तथा वीतनी हुई बातके लिये शोक न करनेवाले हों—ऐसे मन्त्री जिस राजाके पास रहते हों, वही राज्यका फल भोगता है। जिस राजाके सहायक उसके सुखमें सुखी और दुःखमें दुःखी रहते हों, उसकी आर्थिक उन्नतिकी चिन्तामें लगे रहनेवाले और सत्यवादी हों, वही राज्यका फल भोगता है। जिसका देश दुखी न हो, जो स्वयं छोटे विचारका न होकर सदा सन्मार्गपर चलनेवाला हो, वही राजा राज्यका भागी होता है। विश्वासपात्र, संतोषी तथा खजाना बढ़ानेका प्रयत्न करनेवाले खजाँचियोंके द्वारा जिसके कोषकी सदा वृद्धि हो रही हो, वही राजा उत्तम है। यदि लीमवश फूट न सकनेवाले, संप्रहरी, सुपात्र, विश्वसनीय एवं निलोभ मनुष्य अन्नादि-भंडारकी रक्षामें नियुक्त हों, तो उसकी विशेष उन्नति होती है। जिसके नगरमें कर्मके अनुसार फल देनेवाले शङ्खमुनिके बनावे हुए न्यायका पालन देखा जाता

हो, वही राजा अपने धर्मका फल पाता है। जो अपने यहाँ अच्छे लोगोंको जुटाता है और अवसरके अनुसार राजनीतिके संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव तथा समाश्रय नामक छः गुणोंका उपयोग करता है, उसीको धर्मका फल मिलता है।

बुद्धिमान् राजाको चाहिये कि पहले अपने सेवकोंकी सच्चाई, शुद्धता, सरलता, स्वभाव, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार, कुलीनता, जितेन्द्रियता, दया, बल, पराक्रम, प्रभाव, विनय तथा क्षमा आदि गुणोंकी जानकारी प्राप्त करे। फिर जो जिस कार्यके योग्य जान पड़ें, उन्हें उसी कामपर लगावे और उनकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध कर दे। बिना जाँचे-बूझे किसीको मन्त्री न बनावे; क्योंकि नीच कुलके मनुष्यका सहवास हो जानेपर राजाको न सुख मिलता है, न उसकी उन्नति होती है। यदि राजा अपराध न होनेपर भी किसी कुलीन पुरुषका तिरस्कार कर दे तो वह अपनी कुलीनताके ही कारण राजाका अनिष्ट करनेका विचार नहीं करता। किंतु एक नीच कुलका मनुष्य साधु स्वभावके राजाका आश्रय पाकर यद्यपि दुर्लभ ऐश्वर्यका उपभोग करता है, तथापि यदि एक बार भी राजाने उसकी निन्दा कर दी तो वह उसका शत्रु बन जाता है। इसलिये मन्त्री उसे बनावे जो कुलीन, शिक्षित, बुद्धिमान्, ज्ञान-विज्ञानमें निपुण, सब शस्त्रोंका तत्त्व जाननेवाला, सहनशील, अपने देशका निवासी, कृतज्ञ, बलवान्, क्षमावान्, जितेन्द्रिय, निलोभ, जितना मिल जाय उतनेहीसे संतुष्ट रहनेवाला, अपने स्वामी तथा मित्रोंकी उन्नति चाहनेवाला, देश-कालका ज्ञान रखनेवाला, वस्तुओंका संग्रह करनेवाला, सदा मनको व्रशमें रखनेवाला, हितैषी, आलस्यसे रहित, संधि और विग्रहका अवसर जाननेवाला, नगर और देशके लोगोंका प्रेमभाजन, खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूह-निर्माणकी कलामें कुशल, अपनी सेनाका उत्साह बढ़ानेमें प्रवीण, चेष्टा और शकल देखकर मनुष्यके मनका भाव समझनेवाला, अहंकाररहित, निर्भोक, कार्यदक्ष, बलवान्, उचित काम करनेवाला, शुद्ध, राजनीतिमें चतुर, गुणवान्, ज्योगशील, जड़तासे रहित, दूरतक विख्यात, अच्छे स्वभाववाला, भीठे वचन बोलनेवाला, धीर, शूरवीर तथा देश-कालके अनुसार काम करनेवाला हो।

जो राजा ऐसे योग्य पुरुषको मन्त्री बनाता और कभी उसका अनादर नहीं करता है, उसका राज्य चन्द्रमाकी चाँदनीकी तरह चारों ओर फैल जाता है। राजाको भी उपर्युक्त गुणोंसे विभूषित होना चाहिये। साथ ही उसमें शास्त्रज्ञान, धर्मपरायणता और प्रजापालन आदि गुण भी

रहने चाहिये । राजा धीर, क्षमावान्, पवित्र, मनुष्य और समयको पहचाननेवाला, बड़ोंकी सेवा करनेवाला, शास्त्रका ज्ञाता, बुद्धिमान्, स्मरणशक्तिते सम्पन्न, न्यायके अनुसार कार्य करनेवाला, जितेन्द्रिय, प्रिय बोलनेवाला, शत्रुको भी क्षमा करनेवाला, श्रद्धानु और दुःखियोंको हाथका सहारा देनेवाला हो । वह अहंकार न करे, कर्तव्य-परायण बने, अपने भक्तोंपर प्रेम रखे, अच्छे मनुष्योंका संग्रह करे, जड़ताको त्याग दे, सदा प्रसन्नमुख बना रहे, सेवकोंका सर्वदा ख्याल रखे, क्रोध न करे, हृदयको उदार बनाये, राजदण्डका कमी त्याग न करे, किंतु उसका न्यायके अनुसार उपयोग करे, गुप्तचररूपी नेत्रोंके द्वारा प्रजाकी प्रत्येक अवस्थापर दृष्टि रखे तथा धर्म और अर्थके विषयमें सर्वदा कुशल रहे । ऐसे संकड़ों गुणोंसे युक्त राजा हो प्रजाके लिये वाञ्छनीय होता है ।

राजन् ! राज्यको रक्षामें सहायता पहुँचानेवाले समस्त सैनिक भी इसी प्रकार अच्छे गुणोंसे सम्पन्न होने चाहिये । इसके लिये अच्छे पुरुषोंकी ही तलाश करनी चाहिये और उनका कमी अपमान नहीं करना चाहिये । जिसके योद्धा युद्धमें धीरता दिखानेवाले, कृतज्ञ, शस्त्र चलानेकी कलामें कुशल, निर्मम, धर्मशास्त्रके ज्ञाता तथा धर्मविद्यामें प्रवीण होते हैं, उसी राजाके अधीन इस भूमण्डलका राज्य होता है । जो राजा सेवकोंके गुण और स्वभावको जानकर उन्हें

योग्य कार्योंमें नियुक्त करता है, उसे ही राज्यका कल मिलता है । मन्त्रोंके पदपर भी उन्हींको बिठाना चाहिये, जिनमें उस पदके अनुरूप गुण और उस कामको समाप्तनेकी योग्यता हो । जो भूयोंको उनकी योग्यताके अनुकूल काम सौंपता हो, वह राजा राज्यसे फायदा उठाता है; इसलिये भूर्ख, क्षुद्र, बुद्धिहीन, अजितेन्द्रिय तथा नीच कुलके मनुष्योंको राज्यके काममें नहीं लगाया चाहिये । जो सज्जन, बुद्धीमत्, शूर, ज्ञानी, किसीकी निन्दा न करनेवाले, उत्तम, पवित्र तथा कायंदक्ष हों, वे ही योग्य राजाके पार्ष्ववर्ती (मन्त्री) होनेयोग्य हैं । ऐसे सहायकोंको पाकर सारी पृथ्वी जीती जा सकती है । जो आज्ञा पाते ही चलाये हुए तोरके समान शीघ्र जाकर स्वामीके काममें लग जाते हैं और सदा उसके हितका ध्यान रखते हैं, उन सेवकोंको बराबर सान्त्वना देते रहना चाहिये । राजाको यत्नपूर्वक अपने लगानेकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि वही राज्यकी जड़ है, उसीसे राजाका अम्पुदय होता है । युधिष्ठिर ! मंडार-पर्वोंको भी अच्छे-अच्छे अनाजोंसे भरे रखो और उनको रक्षाका भार सत्पुरुषोंके ऊपर छोड़ो । इस प्रकार धन और धान्य—दोनोंका संग्रह करते रहो । अपने युद्धकुशल घोड़ाओंको सदा अभ्यासमें लगाये रखो । भाई-भग्युओंको भी देख-भाल करो । मित्रों और सम्बन्धियोंके साथ रहकर पुरायसियोंके कार्य सिद्ध करो और उनके हित-साधनमें लगे रहो ।

राजधर्म और दण्डके स्वरूपका वर्णन

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! अब आप मूझे संक्षेपसे प्राचीन राजाओंके धर्म सुनाइये ।

भीष्मजी बोले—युधिष्ठिर ! क्षत्रियके लिये सबसे श्रेष्ठ धर्म है—सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा करना । किंतु यह किया कैसे जाय ? इसकी बात रहा हूँ, सुनो । राजाको समय-समयपर उग्र-शान्त आदि अनेकों रूप धारण करने चाहिये । जिस कार्यके लिये जो हितकर जान पड़े, उसमें वही रूप प्रकट करना उचित है (उदाहरणके लिये—अपराधीको दण्ड देते समय उग्ररूप और दीनपर अनुग्रह करते समय शान्त एवं दयालुरूप प्रकट करे) । इस प्रकार अनेकों रूप धारण करनेवाले राजाका छोटा काम भी नहीं बिगड़ने पाता । जैसे शरद् ऋतुका मोर बोलता नहीं, उसी प्रकार राजा भी मोन रहकर राजकीय गुप्त विचारोंको प्रकट न होने दे । बोलना ही पड़े तो भीठी बाणी बोलें और वह भी बहुत कम ।

राजा सबका प्रिय करे, किंतु धर्ममें बाधा न आने दे । जिसके सदृश्यहारसे प्रसन्न होकर सारी प्रजा उसे अपना मानने लगती है, वह राजा धर्मके समान भवत ही जाता है । जैसे सूर्य सबपर समान भावसे अपनी किरणें फैलाता है, उसी तरह राजा न्याय करते समय किसीका पक्षपात न करे । प्रिय और अप्रियको समान समझकर केवल धर्मकी ही रक्षा करे । जो कुलधर्म, प्रकृतिधर्म और देशधर्मको जाननेवाले तथा मोठे बचन बोलनेवाले हों, जिनपर जयानीमें कोई कलंक न लगा हो, जो हित-साधनमें लगे रहनेवाले, धैर्यवान्, निलोभ, विरहित, जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ तथा धर्म और अर्थकी रक्षा करनेवाले हों, ऐसे ही पुरुषोंको राज्यके सब कामोंमें लगाया चाहिये ।

इस प्रकार सदा साध्यान्त रहकर राज्यके प्रत्येक कार्यका आरम्भ और उसकी समाप्ति करे । मनमें संतोष रखें और गुप्तचरोंकी सहायतासे राज्यकी सारी बातें

जिसके प्रोच और हृष्य निष्काम नहीं जाते, जिसकी क्या समयपर विहित हो, जो यथाथं कारणाति हो वण्ड देता हो तथा अपनी और अपने भेषकी रक्षा करना हो, यही राजा राज-धर्मका धारता है। जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे संसारको घेरता है, उसी तरह राजा भी सदा अपने भेषोंसे राज्यका निरीक्षण करे। राज्यमें भ्रमण करनेवाले घरोंकी बातें जानें और स्वयं अपनी बुद्धिसे भी विचार करे। जैसे समय आये, उसमें अनुसार काम करे और अपने अर्थ-संग्रहको दूसरोंपर प्रकट न करे। जैसे भाग्यका पालन करते हुए प्रतिदिन उससे पूष मुग्ध जाता है, उसी प्रकार राज्यकी रक्षापुष्पक राजाको उससे कर लेना चाहिये। जैसे माह्यकी मक्खी भ्रमणः कई फुलोंसे थोड़ा-थोड़ा रस लेकर मधु घट्ट करती है, उसी तरह राजाको भी क्रमशः समस्त प्रजासे कर लेकर प्रथम-संग्रह करना चाहिये।

राज्यकी रक्षा और धेतन आदि घेनेसे जो धन बचे, उसीको धर्ममें खर्च करे और अपने उपभोगमें भी लगाये। शास्त्रका राजाको, जहाँतक सम्भव हो, लजामेका धन नहीं खर्च करना चाहिये। थोड़ा-ना भी धन मिलता हो तो उसका तिरस्कार न करे, बल्कि छोटा न समझे, बुद्धिसे अपनी स्थितिको समझता रहे और सुलौपर कभी विस्थापन न करे। समरणाशक्ति, समुद्रता, संयम, बुद्धि, शरीर, धर्म, शूरता और वैशालकी परिस्थितिके आधारवाह न रहना—ये आठ धनको धनुषके मुख्य साधन हैं। शत्रु बालक, जवान अथवा युवा ही पर्यो न हो, साधधान न रहनेवाले मनुष्यका नाश कर खालता है। यह शोक पाकर राजाकी जड़ उखाड़ सकता है; इसलिये जो समयका ज्ञान रखता है, यही राजाओंमें श्रेष्ठ समझा जाता है। देव रक्षनेवाला शत्रु दुर्धत हो या बलवान्, राजाकी कीर्ति बण्ड करता है, उसके धर्ममें बाधा पहुँचाता है तथा अर्थपात्रांशमें कटौती हुई उसकी शक्तिका विनाश करता है। इसलिये मनुष्यको प्रथम रहनेवाला राजा शत्रुकी ओरसे सापरवाह न रहे। हानि, नाश, रक्षा और संग्रह आदिको सब समयका बुद्धिमान् मुख्य शत्रुके साथ संधि या विग्रह करे, इसके लिये बुद्धिमान् सहारा ले। परिभाजित बुद्धि बलवान्को भी पछाड़ देती है, बढ़ते हुए बलकी बुद्धि ही रक्षा करती है, धर्ममें धड़े-पड़े शत्रुको भी बुद्धिके द्वारा संकटमें डाला जा सकता है, इसलिये बुद्धिके विचारनेके बाद जो काम किया जाता है, यही उत्तम होता है। जिसने सब प्रकारके दोषोंका त्याग कर दिया है, यह धीर राजा थोड़ी-सी सेनाके बलसे भी सम्पूर्ण शत्रुओंको प्राप्त कर सकता है।

प्रजापर रोग रहते हुए ही उससे धन (कर) मगूल करे, उसे अधिक बलवत्क सातकर उसपर विजलीके समान

गिरकर अपना प्रभाव न दिखाये। सोभी मनुष्य दूसरोंके धन, योग-सामग्री, स्त्री, पुत्र तथा समृद्धि—सब कुछ हड़प लेना चाहता है, उसमें सब प्रकारके दोष प्रकट होते हैं; इसलिये जोभीको अपने यहाँ न रखे। जिस राजाने धर्मका आह्वानोंसे तत्त्वज्ञान प्राप्त किया है, जो मन्त्रियोंसे सुरक्षित, प्रजाका विस्थापका तथा कुलीन है, वह अपनेको कर देनेवाले सामन्त-नरेशोंको प्रथम रक्ष सकता है। राजन् ! जैसे शंखसे जिन राजाधर्मोंका घणन किया है, उन्हें बुद्धिके विचार करके धारण करो। जो उन्हें मालीभाँति समझकर आचरणमें लाता है, यही अपने राज्यकी रक्षा कर सकता है। जिसका मुख-योग हठ, अन्वय तथा बान्धुनके बलपर स्थित देखा जाता है, उस राजाको परलोकमें उत्तम गति नहीं मिलती और उसका यह राज्य-सुख भी अधिक दिनोत्तक कायम नहीं रहता।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! अपने सनातन राजधर्मका घणन किया, इससे अनुसार वण्ड ही सबका ईश्वर है, वण्डके ही आधार पर सब कुछ स्थित हुआ है। देवता, प्रधि, पितर, महात्मता, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा संसारके समस्त प्राणियोंके लिये वण्ड ही कल्याणका साधन है। उसीपर धराचर जगत् प्रतिष्ठित है; अतः मैं जानना चाहता हूँ कि वण्ड क्या है ? कैसा है ? उसका स्वरूप क्या है ? और किसके आधारपर उसकी स्थिति है ? साथ ही यह भी बतलाये कि वण्डका उपादान क्या है ? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ? उसका आकार कैसा है और यह किस प्रकार साधधान रहकर सम्पूर्ण प्राणियोंका शासन करनेके लिये जागृत रहता है ?

श्रीकर्मजीने कहा—गुरुनन्दन ! वण्डका जो स्वरूप है तथा उसका व्यवहार जिस तरह किया जाता है, यह सब तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस संसारमें सब कुछ जिसके अधीन है, यही वण्ड है। उसकी धर्ममें गणना है, उसीको व्यवहार (न्याय) भी कहते हैं। लोकमें किसी तरह धर्म और ध्यायका लोप न होने पाये—इसके लिये वण्ड आवश्यक है। व्यवहारकी रक्षाके कारण ही यह व्यवहार कहलाता है। पूर्वकालमें मनुष्य यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और अप्रियको समान समझकर—पक्षपात न करके वण्डका ठीक-ठीक उपयोग करता हुआ प्रजाका पालन करता है, उसका यह कार्य केवल धर्म ही समझा जाता है। मैंने जो यह वण्डकी बात बतायी है, यह ब्रह्मजीका महान् वचन है और इसे सत्यसे पहले मनुष्योंने कहा है, इसलिये इसको 'प्राग्बचन' कहते हैं तथा व्यवहारका प्रतिपादन करनेके कारण यह व्यवहार भी कहा गया है। वण्डका ठीक-ठीक उपयोग होनेपर

ही सदा धर्म, अर्थ और कामकी सत्ता कायम रहती है; इसलिये दण्ड महान् देवता है। इसका स्वरूप प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी है। तलवार, घनुय, गदा, शक्ति, त्रिशूल, मुद्गर, बाण, मुसल, फरसा, चक्र, पाश, दण्ड, ऋषि, तोमर तथा दूसरे-दूसरे जो प्रहार करनेयोग्य अस्त्र-नास्त्र हैं, उन सबके रूपमें सर्वात्मा दण्ड ही मूर्तिमान होकर विचरता है। वही अपराधियोंको भेदता, छेदता, पीडित करता, काटता, घोरता, फाड़ता तथा मरवाता है। इस प्रकार दण्ड ही संसारमें सब ओर चौड़ा करता है।

दण्ड सर्वत्र व्यापक होनेके कारण भगवान् विष्णु है और मनुष्योंका अमन (अधम्य) होनेसे नारायण कहलाता है। वह महान् सनातन स्वरूपको धारण करता है, इसलिये उसे महापुरुष कहते हैं। इसी प्रकार दण्डनीति भी ब्रह्माजीकी कन्या कही गयी है; सखी, वृत्ति, सरस्वती और जगद्धात्री भी उसीके नाम हैं; इस तरह दण्डके अनेकों स्वरूप हैं। अर्थ-अनर्थ, सुख-दुःख, धर्म-अधर्म, बल-अबल, दुर्भाग्य-सौभाग्य, गुण-दोष, काम-अकाम, ऋतु-मास, रात-दिन, क्षण, प्रमाद-अप्रमाद, हर्ष-भोष, शम-दम, दैव-मृत्युदाय, बन्ध-भोक्ष, भय-अभय, हिंसा-अहिंसा, तप, धन, संघम, मद, प्रमाद, दप, दम्भ, धैर्य, नीति-अनीति, शक्ति-अशक्ति, मान-अपमान, व्यय-अव्यय, विनय, दान, काल-अकाल, सत्य-असत्य, ज्ञान, अज्ञान-अभ्रान्त, अकर्मण्यता-उद्योग, लाभ-हानि, जय-पराजय, कठोरता-कोमलता, मृत्यु, अल्प-जाना, विरोध-अविरोध, कर्तव्य-अकर्तव्य अमृषा-अनसृषा, सज्जा-अलज्जा, सम्पत्ति-विपत्ति, स्थान, तेज, क्रम, पाण्डित्य, वाकशक्ति तथा सत्त्वदोष—ये सब दण्डके ही अनेकों रूप हैं।

मुर्धाच्छिद्र । संसारमें यदि दण्डकी व्यवस्था न होती तो सबलोग एक-दूसरेको पीस डालते । दण्डके ही भयसे कोई किसीपर हाथ नहीं उठाता । दण्डसे सुरक्षित रहकर ही प्रजा अपने राजाकी दिन-दिन उन्नति करती है, इसलिये दण्ड ही सबको आश्रय देनेवाला है। वही इस जगत्को शीघ्र सत्यमें स्थापित करता है। सत्यमें ही धर्मको स्थिति है और धर्म ब्राह्मणोंमें रहता है। धर्मात्मा ब्राह्मण वेदोंका स्वाध्याय करते हैं, वेदोंसे ही यज्ञ प्रकट हुआ है, यज्ञसे देवता प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हुए देवता इन्द्रसे प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, इससे इन्द्र प्रजाजनोंपर अनुग्रह करके (समयपर बपकि द्वारा खेतों उपजाकर) उन्हें अन्न देता है और सम्पूर्ण

प्राणियोंके प्राण अन्नपर ही अवलम्बित रहते हैं। इसलिये दण्डसे ही प्रजाकी स्थिति कायम है, यही उसको रक्षाके लिये सदा जाग्रत रहता है। वह सदा सावधान रहनेवाला और अविनाशी है तथा रक्षारूपी प्रयोजन-सिद्ध करनेके कारण वह क्षत्रिय है। ईश्वर, पुरुष, प्राण, सत्त्व, धित्त, प्रजापति, मृतात्मा तथा जीव—ये दण्डके ही आठ नाम हैं। उत्तम कुल, अत्यन्त धनवान् मन्त्री, बुद्धि, तेज, भोज और साहस्ररूप बल तथा (आगे बताये जानेवाले) अष्टाङ्ग बलसे उपार्जन करनेयोग्य जो धन, धान्य और खजाने आदिका बल है, उस सबका राजाके पास संग्रह होना चाहिये। हाथी, घोड़े, रथ, पंख, नाव, बेंगल, देशको प्रजा तथा भेड़ आदि पशु—यह आठ अङ्गोंवाला बल है। रथी, हाथीसवार, घुड़सवार, पंख, मन्त्री, धंध, मिश्रुक, बकौल, ज्योतिषी, दैवको अनुकूल बनानेके लिये पूजा-भाठ करनेवाले, खजाना, मित्र, धान्य तथा अन्य सर्व सामग्री—यह सात प्रकृति तथा आठ अङ्गोंसे युक्त सेनाका शरीर है। यह सेना दण्डके ही अन्तर्गत है, अतः दण्ड ही राज्यका प्रधान अङ्ग है; वही इसकी उत्पत्तिका मुख्य कारण है।

ईश्वरने प्रयास करके जगत्को रक्षाके लिये क्षत्रियके हाथमें दण्डका अधिकार दिया है। सबसे प्रति समान भावसे (पक्षपातरहित होकर) उपयोग करनेपर ही दण्डके स्वरूपकी रक्षा होती है। संसारका सनातन व्यवहार दण्डके ही अधीन है। राजाके लिये दण्डरूप धर्मसे बढ़कर और कोई पूज्य नहीं है। ब्रह्माजीने स्वधर्मको स्थापना तथा सौकरक्षाके लिये ही दण्ड-नीतिमय धर्मका उपदेश किया है।

जो दण्ड है वही सनातन व्यवहार है, जो व्यवहार है वही वेद है, जो वेद है वही धर्म है और जो धर्म है वही सत्युद्योगका मार्ग है। सत्युद्योग ही लोकपितामह ब्रह्माजी, जो सबसे प्रथम प्रकट हुए हैं। उन्होंने पहले देवता, अमुर, राक्षस, मनुष्य तथा सपें आदिसे युद्ध सम्पूर्ण लोकोंकी रचना की। फिर वाशे-प्रतिवादीके विवादका निर्णय करानाहम जो व्यवहार (न्याय) है, उसका उपदेश किया। ब्रह्माजीने न्याय करते समय न्याय-कृत्तिक समय यह आदेश रखा है कि यदि माता, पिता, भाई, स्त्री तथा पुरोहित भी अपने धर्ममें स्थिर नहीं रहते तो राजाको चाहिये कि उन्हें भी दण्ड दे; उसके लिये कोई भी अवयवनीय नहीं है।

दण्डकी उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियोंके हाथमें आनेकी परम्पराका वर्णन

भीष्मजी कहते हैं—इस दण्डकी उत्पत्तिके विषयमें एक प्राचीन इतिहास है, जिसको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अङ्गदेशमें वसुहोम नामके एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गये हैं। वे बड़े धर्मात्मा थे। एक समयकी बात है, राजा वसुहोम अपनी रानीको साथ लेकर पितरों, देवताओं तथा ऋषियोंसे पूजित मुञ्जपूठ नामक स्थानपर गये। वह स्थान हिमालय पर्वतका एक शिखर है। एक दिन वहाँ मुञ्जावटके नीचे परशुरामजीने अपनी जटाएँ बाँधी थीं, तभीसे ऋषियोंने उसका नाम 'मुञ्जपूठ' रख दिया। उस स्थानपर भगवान् शंकरका निवास है। राजा वसुहोमने वहाँ रहकर अनेकों वेदोक्त गुणोंको अपनाया। वे अपने तपके प्रभावसे देवोंके तुल्य हो गये। ब्राह्मणोंमें उनका बड़ा सम्मान होने लगा।

एक दिन राजा मान्धाता उनके दर्शनके लिये गये। महाराज वसुहोमको उत्तम तपस्यामें लगे देख वे बड़े विनीत भावसे उनके पास जाकर प्रणाम करके खड़े हुए। उस समय अङ्गराजने भी पाछ और अर्घ्य अर्पण करके राजा मान्धाताका आतिथ्य-सत्कार किया, फिर उनके राज्यका कुशल-समाचार पूछा, इसके बाद प्रजाके साथ किये गये उनके सद्वर्तव्यका तथा सेवकोंका हाल पूछते हुए कहा 'महाराज ! वताइये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?'

मान्धाताने कहा—राजन् ! आपने बृहस्पतिके सिद्धान्तोंका पूर्ण अध्ययन किया है, साथ ही शुक्राचार्यके नीति-शास्त्रकी भी विशेष जानकारी प्राप्त की है। अतः मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि दण्डकी उत्पत्ति कैसे हुई है ? इसका कारण और कार्य क्या है ? तथा इस समय इसका भार क्षत्रियोंपर क्यों रक्खा गया है ? मैं शिष्यभावसे पूछ रहा हूँ, मुझे इन बातोंका उत्तर दीजिये।

वसुहोमने कहा—राजन् ! दण्ड सम्पूर्ण जगत्को नियमके अंदर रखनेवाला है, यह धर्मका सनातन आत्मा है, इसका उद्देश्य है—प्रजाको उद्दण्डतासे बचाना। इसकी उत्पत्ति जिस तरह हुई है, सो वता रहा हूँ; सुनिये। सुननेमें आया है कि किसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी यज्ञ करना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने योग्य ऋत्विज नहीं दिखायी पड़े। तब उन्होंने अपने मस्तकमें एक गर्भ धारण किया। वह गर्भ एक हजार वर्षोंतक उनके मस्तकमें रहा। हजारवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर ब्रह्माजीको छोक आयी। छोकके साथ ही वह गर्भ भी नाककी राहसे बाहर निकलकर गिरा। उससे जो बालक प्रकट हुआ, वह प्रजापति क्षुपके नामसे प्रसिद्ध

हुआ। प्रजापति क्षुप ही ब्रह्माजीके यज्ञमें ऋत्विज बनाये गये। (यज्ञकी दीक्षा लेनेपर ब्रह्माजीकी आकृतिमें विनय और शान्ति आदि गुणोंकी मूलक दिखायी देने लगे। प्रजाके ऊपर शासन करते समय जो उग्रता थी वह न रही, इसलिये) यज्ञ प्रारम्भ होते ही प्रत्यक्षमें शान्तरूपकी प्रधानता होनेके कारण दण्ड अदृश्य हो गया—प्रजाको दण्ड मिलनेका भय जाता रहा।

दण्ड लुप्त होते ही प्रजामें वर्णसंकरता (व्यभिचार)की मात्रा बढ़ने लगी। कर्तव्य-अकर्तव्य, भक्ष्य-अभक्ष्य, पेय-अपेय तथा गम्य-अगम्यका विचार उठ गया। सब एक-दूसरेके प्राण लेने लगे। अपना और दूसरेका धन एक-सा समझा जाने लगा। जैसे कुत्ते मांसके टुकड़ोंको आपसमें छीनते और नोचते-खसोटते हैं, उसी तरह मनुष्य भी एक-दूसरेका धन लूटने लगे। बलवान् निर्बलोंको मौतके घाट उतारने लगे। सर्वत्र उच्छृङ्खलताका बोलबाला हो गया।

यह देख पितामह ब्रह्माजीने सनातन भगवान् विष्णुका पूजन करके वरदानी महादेवजीसे कहा—'भगवन् ! अब आप ही कृपा करके ऐसा उपाय करें, जिससे प्रजामें वर्ण-संकरता न फैलने पावे।' तब भगवान् शूलपाणिने कुछ देरतक सोच-विचार करके अपने आपको ही दण्डके रूपमें प्रकट किया। उससे धर्माचरण होता देख नीतिदेवी सरस्वतीने लोक-विख्यात दण्डनीतिकी रचना की। फिर त्रिशूलधारी भगवान् शंकरने कुछ सोचनेके पश्चात् एक-एक समूहका एक-एक राजा बनाया। उन्होंने इन्द्रकी देवताओंका, यमकी पितरोंका, कुबेरको धन और राक्षसोंका, मेरुको पर्वतोंका, समुद्रको सरिताओंका, वरुणको जल और असुरोंका, मृत्युको प्राणोंका, वसिष्ठको ब्राह्मणोंका, अग्निको वसुओंका, सूर्यको तेजका, चन्द्रमाको ताराओं और ओषधियोंका, कुमार कार्तिकेयको भूतोंका तथा कालको सबका राजा बना दिया। इसके पश्चात् भगवान् शूलपाणि स्वयं रुद्रोंके राजा हुए। ब्रह्माके पुत्र क्षुपको उन्होंने समस्त प्रजाओंका आधिपत्य प्रदान किया।

तदनन्तर, ब्रह्माजीका, वह यज्ञ जब विधिवत् समाप्त हो गया तो महादेवजीने धर्मरक्षक भगवान् विष्णुका सत्कार करके उन्हें वह दण्ड अर्पण किया। विष्णुने उसे अङ्गिराको दिया। अङ्गिराने इन्द्र और मरीचिकको, मरीचिने भृगुको, भृगुने ऋषियोंको, ऋषियोंने लोकपालोंको, लोकपालोंने क्षुपको, क्षुपने वंशस्वत मनको तथा मनने सूक्ष्म धर्म और

अर्पकी रक्षाके लिये उसे अपने पुत्रोंकी सौंपा। अतः धर्मके अनुसार न्याय-अन्यायका विचार करके ही दण्डका विधान करना चाहिये, मनमाना नहीं करनी चाहिये। दुष्टोंका दमन करना ही दण्डका मुख्य उद्देश्य है। अपराधीसे जो सुवर्ण आदि वसूल किया जाता है, वह भी बाहरी लोगोंको आर्तार्थित करनेके लिये ही है, खजाना भरनेके लिये नहीं। छोटे-से अपराधपर प्रजाका अङ्ग-मङ्ग करना, उसे मार डालना, उसके शरीरको तरह-तरहकी यातनाएँ देना तथा उसे दैमानिकाला दे देना उचित नहीं है। वैवस्वत मनुने प्रजाकी रक्षाके लिये ही अपने पुत्रोंके हाथमें दण्ड सौंपा था, वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियोंके हाथमें आकर प्रजाकी रक्षामें निरन्तर जाग्रत रहता है।

प्रजाके पालन और दण्डका अधिकार ब्रह्माजीसे महादेवजीको मिला, उनसे विरवेदेवोंको, विरवेदेवोंसे ऋषियोंको, ऋषियोंसे सोमको, सोमसे सनातन देवताओंको

और देवताओंसे ब्राह्मणोंको मिला, उस समय ब्राह्मण ही सोकरक्षाके लिये सावधान रहते थे। फिर ब्राह्मणोंसे यह अधिकार क्षत्रियोंको मिला। तबसे अबतक क्षत्रिय ही धर्मानुसार जगत्को रक्षा करते आ रहे हैं। दण्ड ही सबको धर्ममें रखता है। यह कालरूप दण्ड सृष्टिके आदि, मध्य और अन्तमें भी जागहक रहता है। यही सम्पूर्ण लोकोंका ईश्वर तथा प्रजापति है। यह साक्षात् महादेवजीका स्वरूप है। धर्मत राजाको चाहिये कि वह न्यायके अनुसार दण्डका उपयोग करे।

भीष्मजी कहते हैं—जो राजा बभ्रुहीमके ब्रतये हुए इस सिद्धान्तको सुनता और सुनकर इसके अनुसार ठीक-ठीक बर्ताव करता है, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। इस प्रकार दण्डके सम्बन्धमें जितनी बातें हैं वे सब मैंने सुर्हें बता दीं। दण्ड ही सम्पूर्ण जगत्को नियमके भीतर रखने-वाला है।

त्रिवर्गका विचार और आङ्गिरिष्ठ तथा कामन्दकका संवाद

युधिष्ठिरने पूछा—तात ! अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि धर्म, अर्थ और कामका निर्णय कैसे करना चाहिये ? धर्म, अर्थ और काम किस उद्देश्यसे किये जाते हैं ? इनकी उत्पत्तिका कारण क्या है ? ये कहाँ एक साथ मिले हुए और कहाँ अलग-अलग धर्म रहते हैं ?

भीष्मजीने कहा—संसारमें जब मनुष्योंका चित्त शुद्ध होता है और वे धर्मपूर्वक किसी अर्थको प्राप्तिका निरपेक्ष करके प्रयत्न होते हैं, उस समय उचित काल, कारण तथा सम्यक् कर्मानुष्ठानवशा धर्म, अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं। इनमें धर्म तो अर्थका कारण है और काम अर्थका फल कहलाता है। परंतु इन तीनोंका मूल कारण है संकल्प। संकल्प है विषयवृत्त और सम्पूर्ण विषय इन्द्रियोंके उपभोगमें आनेके लिये हैं। यही धर्म, अर्थ और कामका मूल है। इससे निवृत्त होना ही मोक्ष है। फलेच्छाको त्याग कर त्रिवर्गका सेवन किया जाय तो उसका पर्यवसान भी मोक्षमें ही होता है। यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े शोभायकी बात है। अर्थसिद्धिके लिये समक-व्यमकर धर्मानुष्ठान करनेपर भी कभी अर्थकी सिद्धि होती है, कभी नहीं होती है; इसके सिवा, कभी दूसरे-दूसरे कामोंसे भी अर्थकी सिद्धि हो जाती है और कभी अर्थ नष्ट भी हो जाता है। फलकी इच्छा धर्मका मूल है, केवल गाड़कर रखना धनका मूल है और स्वगुणवर्जित—

संतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे रहित केवल आभोर-प्रमोदपर ही दृष्टि रखना कामका मूल है।

इस विषयमें जानकार शोग राजा आङ्गिरिष्ठ और कामन्दक ऋषिका संवाद सुनाया करते हैं। यह एक प्राचीन इतिहास है। किसी समयकी बात है, कामन्दक ऋषि अपने आश्रममें बंटे थे; उन्हें प्रणाम करके राजा आङ्गिरिष्ठने पूछा—'मुनिवर ! यदि राजा काम और मोहके बशोभूत होकर पाप कर बंटे और फिर उसे परजासाप होने लगे तो उसके उस पापको दूर करनेके लिये कौन-सा प्रायश्चित्त है ?'

कामन्दकने कहा—'राजन् ! जो धर्म और अर्थका परित्याग करके केवल कामका ही सेवन करता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धिका नाश ही मोह है, वह धर्म और अर्थ दोनोंको मष्ट करता है। इससे मनुष्यमें नास्तिकता आती है और यह कुटाचारमें प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी बशमें प्रजा उसका साप नहीं देती, साप और ब्राह्मण भी उससे अलग हो जाते हैं। फिर तो उसका जीवन शतरेमें पड़ जाता है और अन्ततोगत्वा वह प्रजाके हाथसे मारा भी जाता है। इस अवस्थामें आचार्य शोग उसके लिये यह कर्तव्य बतलाते हैं—वह अपने पापोंकी निन्दा, देवोंका निरन्तर स्वाध्याय और ब्राह्मणोंका सत्कार करे। धर्ममें मन समाये और उत्तम कुलमें विवाह करे। उदार और शान्तिम

ब्राह्मणोंकी सेवामें रहे। जलमें खड़ा होकर गायत्रीका जप करे। सदा प्रसन्न रहे। पापियोंको राज्यके बाहर निकालकर धर्मात्माओंका सत्संग करे। मीठी वाणी तथा उत्तम कर्मके द्वारा सबको प्रसन्न रखे और दूसरोंके गुणोंका बखान

करे। जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है, वह शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मानका पात्र बन जाता है। वह अपने कठिन-से-कठिन पापोंका भी नाश कर डालता है।

शील-निरूपण—इन्द्र और प्रह्लादकी कथा

युधिष्ठिरने पूछा—नरश्रेष्ठ ! संसारमें मनुष्य धर्मके हेतु-भूत शीलकी ही अधिक प्रशंसा करते हैं। अतः यदि आप मुझे सुननेका अधिकारी समझें तो यही बतानेकी कृपा करें कि उस शीलका क्या लक्षण है ? और वह कैसे प्राप्त होता है ?

भीष्मजीने कहा—राजन् ! इन्द्रप्रस्थमें जब तुम्हारा राजसूय यज्ञ हुआ था, उस समय तुम्हारी अनुपम सम्पत्ति और समामवनको देखकर दुर्योधनको बड़ा संताप हुआ। वहाँसे लौटनेपर उसने अपने पितासे सारी बातें कह सुनायीं। तब धृतराष्ट्रने कहा—'बेटा ! यदि तुम युधिष्ठिरकी ही भाँति या उनसे भी बढ़कर राज्य-लक्ष्मी पाना चाहते हो तो शीलवान् बनो। शीलसे तीनों लोक जीते जा सकते हैं। शीलवानोंके लिये इस संसारमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मान्धाताने एक ही रातमें, जनमेजयने तीन रातोंमें और नामागने सात रातोंमें ही इस पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था। ये सभी राजा शीलवान् तथा दयालु थे। अतः उनके द्वारा गुणोंके मोल खरीदी हुई यह पृथ्वी स्वयं ही उनके पास आ गयी थी।'

दुर्योधनने पूछा—भारत ! जिसके द्वारा उन राजाओंने शीघ्र ही भूमण्डलका राज्य पा लिया, वह शील कैसे प्राप्त होता है ?

धृतराष्ट्रने कहा—इसके विषयमें एक पुराना इतिहास है, जिसे नारदजीने शीलके प्रसङ्गमें सुनाया था। प्राचीन समयकी बात है, वैत्परराज प्रह्लादने अपने शीलके सहारे इन्द्रका राज्य ले लिया और तीनों लोकोंको अपने वशमें कर लिया। उस समय इन्द्रने बृहस्पतिजीके पास जाकर उनसे ऐश्वर्यप्राप्तिका उपाय पूछा। बृहस्पतिजीने उन्हें इस विषयका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शुक्राचार्यके पास जानेकी आज्ञा दी। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शुक्राचार्यके पास जाकर फिर वही प्रश्न पुहराया। शुक्राचार्य बोले—'इसका विशेष ज्ञान महात्मा प्रह्लादको है।' यह सुनकर इन्द्र बहुत खुश हुए और ब्राह्मणका रूप धारण कर प्रह्लादके पास गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा—'राजन् ! मैं

श्रेय-प्राप्तिका उपाय जानना चाहता हूँ; आप बतानेकी कृपा करें।' प्रह्लादने कहा—'विप्रवर ! मैं तीनों लोकोंके राज्यका प्रबन्ध करनेमें व्यस्त रहता हूँ, इसलिये मेरे पास आपको उपदेश देनेका समय नहीं है।' ब्राह्मणने कहा—'महाराज ! जब समय मिले तभी मैं आपसे उत्तम आचरणका उपदेश लेना चाहता हूँ।'

ब्राह्मणकी सच्ची निष्ठा देखकर प्रह्लाद बड़े प्रसन्न हुए और शुभ समय आनेपर उन्होंने उसे ज्ञानका तत्त्व समझाया। ब्राह्मणने भी अपनी उत्तम गुरुभक्तिका परिचय दिया। उसने प्रह्लादके इच्छानुसार न्यायोचित रीतिसे भलीभाँति उनकी सेवा की। फिर समय पाकर उनसे अनेकों बार यह प्रश्न किया कि 'त्रिभुवनका उत्तम राज्य आपको कैसे मिला ? इसका कारण मुझे बताइये।'

प्रह्लादने कहा—विप्रवर ! मैं 'राजा हूँ' इस अभिमानमें आकर कभी ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीं करता; बल्कि जब वे मुझे शुक्रनीतिका उपदेश करते हैं, उस समय संयमपूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी आज्ञाको सिरपर धारण करता हूँ। यथाशक्ति शुक्राचार्यके बताये हुए नीति-मार्गपर चलता हूँ, ब्राह्मणोंकी सेवा करता हूँ, किसीका बोध नहीं देखता, धर्ममें मन लगाता हूँ, क्रोधको जीतकर मनको काबूमें रखकर इन्द्रियोंको भी सदा वशमें किये रहता हूँ। मेरे इस बर्तावको जानकर ही विद्वान् ब्राह्मण मुझे अच्छे-अच्छे उपदेश दिया करते हैं और मैं उनके वचनमूर्तोंका पान करता रहता हूँ। इसीलिये जैसे चन्द्रमा नक्षत्रोंपर शासन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने जातिवालोंपर राज्य करता हूँ। शुक्राचार्यजीका नीतिशास्त्र ही इस भूमण्डलका अमृत है, यही उत्तम नेत्र है और यही श्रेय-प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है।

प्रह्लादसे इस प्रकार उपदेश पाकर भी वह ब्राह्मण उनकी सेवामें लगा ही रहा। तब उन्होंने कहा—'विप्रवर ! तुमने गुरुके समान मेरी सेवा की है, तुम्हारे इस बर्तावसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा।'

ब्राह्मणने कहा—महाराज ! यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो मुझे आपका ही शील ग्रहण करनेकी इच्छा है, यही वर दीजिये ।

ऐसा वरदान माँगनेपर प्रह्लादको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने सोचा 'यह कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा ।' फिर भी 'तथास्तु' कहकर उन्होंने वह वर दे दिया । वर पाकर विप्र-बेधधारी इन्द्र तो चले गये, परंतु प्रह्लादके मनमें बड़ी चिन्ता हुई । वे सोचने लगे—'क्या करना चाहिये ? मगर किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके । इतनेहीमें उनके शरीरसे एक परम कर्त्तमान् छायामय तेज मूर्तिमान् होकर प्रकट हुआ । उसे देखकर प्रह्लादने पूछा—'आप कौन हैं ?' उत्तर मिला—'मैं शील हूँ, तुमने मुझे त्याग दिया, इसलिये जा रहा हूँ । अब उसी ब्राह्मणके शरीरमें निवास करूँगा, जो तुम्हारा शिष्य बनकर एकाग्रचित्तसे सेवापरायण हो यहाँ रहा करता था ।' यह कहकर वह तेज ब्रह्मि अक्षय हो गया और इन्द्रके शरीरमें प्रवेश कर गया ।

उसके अक्षय होते ही उसी तरहका दूसरा तेज उनके शरीरसे प्रकट हुआ । प्रह्लादने उससे भी पूछा—'आप कौन हैं ?' उसने कहा—'प्रह्लाद ! मुझे धर्म समझो । मैं भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मणके ही पास जा रहा हूँ; क्योंकि जहाँ शील होता है, वहाँ मैं भी रहता हूँ ।' यों कहकर ज्यों ही वह विदा हुआ त्यों ही तीसरा तेजोमय विग्रह प्रकट हुआ । उससे भी वही प्रश्न हुआ 'आप कौन हैं ?' उस तेजस्वीने उत्तर दिया—'अयुरेन्द्र ! मैं सत्य हूँ और धर्मके पीछे जा रहा हूँ ।' सत्यके जानेपर एक और महाबली पुरुष प्रकट हुआ । पूछनेपर उसने कहा—'प्रह्लाद ! मुझे सदाचार समझो । जहाँ सत्य हो, वहाँ मैं भी रहता हूँ ।' उसके चले जानेपर उनके शरीरसे बड़े जोरकी गर्जना करता हुआ एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ । परिचय पूछनेपर वह बोला 'मैं यत्न हूँ और जहाँ सदाचार गया है, वहाँ स्वयं भी जा रहा हूँ ।' यह कहकर चला गया ।

तत्परचात् प्रह्लादके शरीरसे एक प्रमामयो देवी प्रकट हुई । पूछनेपर उसने बताया 'मैं लक्ष्मी हूँ, तुमने मुझे

त्याग दिया है, इसलिये यहाँसे चली जाती हूँ; क्योंकि जहाँ बल रहता है, वहाँ मैं भी रहती हूँ ।' प्रह्लादने पुनः प्रश्न किया—'देवि ! तुम कहाँ जाती हो ? वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था ? मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ ।' लक्ष्मी बोली—'तुमने जिसे उपदेश दिया है, उस ब्रह्मचारी ब्राह्मणके रूपमें साक्षात् इन्द्र थे । तीनों लोकोंमें जो तुम्हारा ऐश्वर्य फँता हुआ था, वह उन्होंने हर लिया । धर्मज्ञ ! तुमने शीलके ही द्वारा तीनों लोकोंपर विजय पायी थी, मह जानकर इन्द्रने तुम्हारे शीलका अपहरण किया है । धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं (लक्ष्मी)—ये सब शीलके ही आधापर रहते हैं—शील ही सबको जड़ है ।'

यह कहकर लक्ष्मी तथा शील आवि सभे गुण इन्द्रके पास चले गये । इस कथाको सुनकर दुर्बोधने पुनः अपने पितासे पूछा—'कुलन्दन ! मैं शीलका सत्त्व जानना चाहता हूँ, मुझे समझाइये और जिस तरह उसको प्राप्ति हो सके, वह उपाय भी बताइये ।'

धृतराष्ट्रने कहा—'बेटा ! शीलका स्वरूप और उसे पानेका उपाय—ये दोनों बातें महात्मा प्रह्लादने पहले ही बतायी हैं । मैं संक्षेपसे शीलकी प्राप्तिका उपायमात्र बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो—मन, वाणी और शरीरसे किसी भी प्राणिके साथ ब्रह्म न करे । सत्यपर ब्या करे । अपनी शक्तिके अनुसार दान दे—यही वह उत्तम शील है, जिसको सब लोग प्रशंसा करते हैं । अपने जित किसी कार्यं या पुरुषार्थसे दूसरोंका हित न होता हो तथा जिते करनेमें संकोचका सामान्य करना पड़े—वह सब किसी तरह नहीं करना चाहिये । जिस कामको जिस तरह करनेसे मानव-समाजमें प्रशंसा हो वह काम उसी तरह करना चाहिये । योद्धेमें यही शीलका स्वरूप है । बेटा ! इस तत्त्वको ठीक तरहसे समझ लो और यदि मुग्धचित्तरसे भी अच्छी सम्पत्ति प्राप्त करना चाहो तो शीलवान् बनो ।

भोष्मजी कहते हैं—कुलीनन्दन ! राजा धृतराष्ट्रने अपने पुत्रको यह उपदेश दिया था । तुम भी इसका आचरण करो, इससे तुम्हें भी वही फल प्राप्त होगा ।

यम और गौतमका संवाद तथा आपत्तिके समय राजाका धर्म

मुग्धचित्तरने कहा—दादाजी ! जंसे अमृतको पीनेसे तृप्ति न होकर और पीनेकी इच्छा बढ़ती जाती है, उसी तरह आपका उपदेश सुननेसे मेरा मन नहीं भरता, बल्कि और अधिक सुननेकी इच्छा जाग्रत् होती है; इसलिये पुनः

धर्मकी ही बातें बताइये, आपके धर्मोपदेशरूपी अमृतका पान करनेसे मुझे तृप्ति नहीं होती ।

भोष्मजीने कहा—अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ । पार्ष्णिप्रनामक पर्वतपर महर्षि गौतमका महान्

आश्रम है। वहाँ गौतमने साठ हजार वर्षोंतक तप किया था। एक दिन उग्र तपस्यामें लगे हुए उस महामुनिके आश्रमपर लोकपाल यमराज स्वयं आये और उनसे मिले। ऋषिके दर्शनसे संतुष्ट हो यमने उनका विशेष सत्कार किया और पूछा 'कहिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?'

गौतमने कहा—धर्मराज ! आप मुझे यह बतानेकी कृपा कीजिये कि कौन-सा काम करनेसे मनुष्यको माता-पिताके ऋणसे छुटकारा मिलता है ? तथा पवित्र एवं दुर्लभ लोक कैसे प्राप्त होते हैं ?

यमराजने कहा—मनुष्य तप करे, बाहर-भीतरसे पवित्र रहे और सदा सत्यभाषणरूप धर्मका पालन किया करे। उसे प्रतिदिन माता-पिताकी सेवामें संलग्न रहना चाहिये तथा बहुत-सी दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये, इससे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! यदि राजाके दुश्मन अधिक हो जायें, मित्र उसका साथ छोड़ दें तथा उसके पास खजाना और सेना भी न रह जाय, तो उसकी क्या गति है ? बुद्ध मन्त्रियोंकी सहायता होनेके कारण राज्यका गुप्त भेद खुल जानेसे राज्यभ्रष्ट हुए दुर्बल राजापर जब बलवान् शत्रु चढ़ आवे और सामन्तोंसे संघिकी कोई सम्भावना न रह जाय तो क्या काम करनेसे उसका भला हो सकता है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! यह तो तुमने बड़े गोपनीय विषयका प्रश्न किया; यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न न किया गया होता तो मैं ऐसे समयके धर्मका उपदेश नहीं कर सकता था। धर्मका विषय बड़ा सूक्ष्म है, शास्त्रके अनुशीलनसे उसका ज्ञान होता है। शास्त्रसे धर्मका श्रवण करके उसका पालन करनेवाला और सदाचारपूर्वक साधु जीवन व्यतीत करनेवाला मनुष्य कहीं कोई विरला ही होता है। उपर्युक्त संकटके समय राजाओंके जीवनकी रक्षाके लिये मैं ऐसा उपाय बताता हूँ, जिसमें धर्मका अंश अधिक है, उसे ध्यान देकर मुनो। मगर मैं धर्माचरणके उद्देश्यसे ऐसे धर्मकी प्रशंसा करना नहीं चाहता।

आपत्तिके समय भी यदि प्रजाको दुःख देकर धन वसूल किया जाता है, तो पीछे वह राजाके लिये मौतके समान सिद्ध होता है। यह सबका मत है। पुरुष ज्यों-ज्यों शास्त्रका स्वाध्याय करता है, त्यों-ही-त्यों उसका ज्ञान बढ़ता है; फिर तो ज्ञान प्राप्त करनेमें उसकी विशेष रुचि हो जाती है और उसके द्वारा वह संकटसे बचनेका उपाय स्वयं ही ढूँढ़ निकालता है।

अब अपने प्रश्नके अनुसार प्रासङ्गिक बातें मुनो—

खजानेके नष्ट होनेसे ही राजाके बलका नाश होता है। इसलिये वह प्रजासे धन लेकर अपने कोषकी वृद्धि करे। फिर अच्छा समय आनेपर प्रजाके ऊपर धन आदि देकर अनुग्रह करे—यही सदाका धर्म है। प्राचीनकालके राजाओंने भी आपत्तिके समय इस उपाय-धर्मका ही आश्रय लिया था। सामर्थ्यशाली पुरुषोंका धर्म दूसरा है और विपत्तिग्रस्त मनुष्योंका दूसरा। इसलिये पहले कौब-संग्रह करके फिर धर्मका पालन करे।

राजा ऐसा बताव करे, जिससे उसका धर्म भी बना रहे और उसे शत्रुके अधीन भी न होना पड़े। वह अपनेको विपत्तिमें न डाले। हरएक उपायके द्वारा अपने उद्धारके लिये ही प्रयत्न करे। धर्मवेत्ताओंकी धर्ममें निपुणता प्राप्त करनी चाहिये और क्षत्रियोंकी बाहुबलमें। जैसे ब्राह्मण जीविकाके बिना कष्ट पानेपर यज्ञके अनधिकारीसे भी यज्ञ करा लेता और नहीं खानेयोग्य अन्नको भी खा लेता है, उसी प्रकार आजोविकाहीन क्षत्रिय भी तपस्वी और ब्राह्मणके सिवा सबका धन ले सकता है। खजाना और सेनाके नष्ट हो जानेपर सब लोगोंद्वारा अपमानित होनेपर भी क्षत्रियको न तो भीख माँगनी चाहिये और न वैश्य तथा शूद्रकी ही जीविकासे गुजारा करना चाहिये। क्षत्रिय अपने धर्मके अनुसार युद्धमें विजय पाकर ही धनोपाजन करे तो उत्तम है। उसे अपनी जातिवालोंसे भीख माँगकर जीवन-निर्वाह नहीं करना चाहिये।

आपत्तिकालमें राजा और राज्यकी प्रजा—दोनोंको एक-दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये। यही सदाका धर्म है। जैसे प्रजापर संकट आ जाय तो राजा राशि-राशि धन लुटाकर उसे आपत्तिसे बचाता है, उसी तरह राजाके ऊपर संकट पड़नेपर प्रजाको भी उसकी रक्षा करनी चाहिये। राजा जीविकाके लिये कष्ट पानेपर भी खजाना, राजदण्ड, सेना, मित्र तथा अन्य संचित साधनोंको कभी राज्यसे दूर न करे। महामायावी शम्बरसुरका कहना है कि मनुष्यको अपने भोजनके अप्रभंसे भी बचाकर बीजकी रक्षा करनी चाहिये—यही धर्मजोंकी भी राय है। जिसके राज्यकी प्रजाको अन्नका कष्ट हो और वहाँके मनुष्य जीविकाके लिये विदेशमें मारे-मारे फिरते हों, उस राजाको धिक्कार है ! राजाकी जड़ हैं खजाना और सेना, इनमें सेनाकी जड़ है खजाना, सेना सब धर्मों (की रक्षा) का मूल और धर्म प्रजाका मूल है; इसलिये सबके मूलभूत खजानाको बढ़ावे। खजाना ही न हो तो सेना कैसे रह सकती है ? अतः आपत्तिकालमें धन-संग्रहके लिये प्रजाको कुछ दवाना भी पड़े तो राजाको दोष नहीं लगता।

युधिष्ठिर ! राजाके लिये राज्यकी रक्षासे बढ़कर कोई धर्म नहीं है; यही राजाका मुख्य धर्म बताया गया है। ऊपर इस धर्मके विपरीत जो प्रजाको कुछ कष्ट देकर धन लेनेकी बात

कही गयी है, वह तो सिर्फ आपत्तिकालके लिये है, सदाके लिये नहीं। अतः धर्मसे ही कोषका संग्रह करे, उसके लिये अधर्मका आशय कभी नहीं लेना चाहिये।

आपत्तिग्रस्त राजाके कर्तव्य तथा मर्यादाका पालन करनेवाले दस्युओंकी सद्गतिका वर्णन

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! जिस राजाकी शक्ति क्षीण हो गयी हो, जो दीर्घसूत्री हो, जिसके नगर और राष्ट्रोंको शत्रुओंने बाँट लिया हो, जिसके मन्त्रियोंमें एकमत न हो, जो बुबल हो गया हो और बलवान् शत्रुओंने जिसके चित्तको घबराहटमें डाल दिया हो उसे क्या करना चाहिये ?

भोमज्जी बोले—राजन् ! बाहरसे आनेवाला शत्रु यदि धर्म और अर्थमें कुशल तथा पवित्रचरित्र हो तो उसके साथ शोध हो संधि कर ले और इस प्रकार अपने परम्परागत राज्यको शत्रुके हाथमें जानेसे बचा ले। खजाना और सेनाको त्याग देनेसे ही जिन आपत्तियोंसे छुटकारा मिल सकता हो, उनके लिये अर्थ और धर्मको जानेवाला कौन मनुष्य अपने शरीरको भी फँसावेगा ?

युधिष्ठिरने पूछा—दावाजी ! यदि भीतर-ही-भीतर मन्त्रीलोग विगड़ उठें, बाहर नगर और ग्राम आदिको शत्रुने रौंद डाला हो, खजाना खाली हो चुका हो और गुप्त रहस्य भी खुल गया हो तो ऐसी बरामें राजाको क्या करना चाहिये ?

भोमज्जी बोले—ऐसी स्थितिमें या तो तुरंत संधि कर लेनी चाहिये या अकस्मात् अपना प्रबल पराक्रम दिखाकर शत्रुको राज्यसे बाहर निकाल देना चाहिये। ऐसा उद्योग करते समय यदि मृत्यु हो जाय तो वह भी परलोकमें हित करनेवाली होती है। यदि सेनाका अपने प्रति अनुराग हो और उसने उत्साह भी हो तो थोड़ी होनेपर भी उसकी सहायतासे राजा पृथ्वीको जीत सकता है। यदि वह युद्धमें मारा जाता है तो स्वर्गमें जाता है और शत्रुको मार डालता है तो पृथ्वीका राज्य भोगता है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! जब राजाका लोकरक्षाहय परमधर्म न निभ सके और पृथ्वीमें आजोर्विकाके सारे साधनोपर लुटेरोंका अधिकार हो जाय तो उसे क्या करना चाहिये ? तथा ऐसा आपत्काल आनेपर जो ब्राह्मण दयावश अपने स्वी-मुत्रादिको न छोड़ सकें, वह किस प्रकार अपनी जीविका चलावे ?

भोमज्जी बोले—युधिष्ठिर ! ऐसी स्थितिमें ब्राह्मणको तो अपने विज्ञानके बलसे जीवन-निर्वाह करना चाहिये

और राजाको यदि फिर अपना राज्य पानेकी इच्छा हो तो वह किसी प्रकार राज्यकी व्यवस्थाका बिगाड़ न करते हुए प्रजाको अपना समझकर उसकी रक्षाके लिये उसके दिये बिना भी उससे धन ले सकता है परंतु (विपत्तिमें पड़ जानेपर भी) श्रद्धिक्व, पुरोहित, आचार्य और ब्राह्मणादि आदरणीय पवित्रियोंको न सताये—उन्से धन न ले। यह मैंने तुम्हें सब लोकोंके लिये प्रमाणभूत बात बताया है। सब मनुष्योंको इसपर ही विश्वास करके इसीके अनुसार बर्ताव करना चाहिये। यदि गाँव या नगरके बहुतेरे लोग रोयका राजाके पास एक-दूसरेकी स्तुति या निन्दा करें तो उनकी बात मानकर ही किसीका सत्कार या तिरस्कार नहीं करना चाहिये; क्योंकि दूसरोंकी निन्दा करना बुद्ध पुष्टोंका स्वभाव ही होता है तथा सत्युद्ध सर्वका दूसरोंके गुण ही गाय्य करते हैं। जो भगवान् के अवतारों तथा सत्युष्टोंद्वारा सब ओरसे सम्मानित और अपने हृदयसे भी अनुभूतित हो, राजाको उसी धर्मका आचरण करना चाहिये। सत्युष्टोंने जिस विनययुक्त मार्गका अनुसरण किया हो उसीपर उसे स्वयं भी चलना चाहिये; राजादियोंका आचरण ऐसा ही हुआ करता है।

राजन् ! राजाको चाहिये कि अपने और शत्रुके राज्यसे धन लेकर अपने खजानेको भरे; खजानेसे धर्मकी वृद्धि होती है और इसीसे राज्यकी जड़ भी फलती है। कोषकी रक्षा करना और उसे बढ़ाना राजाका सदाका धर्म है, किंतु यदि राजा बलहीन हो तो उसके पास कोष कैसे रह सकता है ? कोषहीनके पास सेना कैसे रह सकती है ? बिना सेनाके राज्य कैसे टिक सकता है ? और राज्यहीनके पास लक्ष्मी कैसे रह सकती है ? अतः राजाको सदा ही कोष, सेना और सुहृदोंकी बढ़ाते रहना चाहिये। जिस प्रकार सूत्री लकड़ी टूट जाती है, किंतु कभी गुरुती नहीं, उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाय, उसे कभी बचना नहीं चाहिये। राजाको ऐसी लोकमर्यादा स्थापित करनी चाहिये जो प्रजाके चित्तको प्रसन्न करनेवाली हो। लोकमें साधारण काममें भी मर्यादाका ही मान होता है। संसारमें ऐसे भी लोग हैं जो इहलोक, परलोक दोनोंहीको नहीं मानते। ऐसे

नास्तिकोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। युद्ध न करनेवालेको मारना, परस्त्रीपर बलात्कार करना, कृतघ्नता, ब्राह्मणका धन लेना, किसीका सर्वस्व छीनना, स्त्रीका अपहरण करना तथा किसी ग्रामादिवर आक्रमण करके स्वयं उसका स्वामी बन बैठना—ये सब बातें डाकुओंमें भी निन्दनीय मानी जाती हैं।

युधिष्ठिर ! जो दस्यु (डाकू) मर्यादाका पालन करता है, उसकी मरनेपर दुर्गति नहीं होती। इस विषयमें यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। कायव्य नामके एक निपाद-पुत्रने दस्यु होनेपर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वह बड़ा बुद्धिमान्, शूरवीर, शास्त्रज्ञ, अक्रूर, आश्रम-धर्मोंका पालन करनेवाला, ब्राह्मणभक्त और गुरुपूजक था तथा क्षत्रियके द्वारा निपादजातिकी स्त्रीके पेटसे उत्पन्न हुआ था। वह शाम-सवेरे दोनों समय वनमें जाकर मृगोंकी टोलियोंको उत्तेजित कर देता था। उसे देश और कालका अच्छा ज्ञान था तथा वह सर्वदा पारियात्र पर्वतपर घूमा करता था। उसे सब प्रकारके प्राणियोंके स्वभावका ज्ञान था, उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था तथा उसके शस्त्र बड़े सुदृढ़ थे। वह अकेला ही हजारों मनुष्योंकी सेनाको जीत लेता था तथा उस विशाल वनमें रहकर अपने अंधे और बहरे माता-पिता तथा दूसरे बड़े-बूढ़ोंकी सेवा किया करता था। वह माननीय पुरुषोंका सत्कार करके उन्हें भोजन कराता और उनको तरह-तरहसे सेवा करता था।

एक बार मर्यादाका अतिक्रमण और तरह-तरहके क्रूरकर्म करनेवाले कई हजार दस्युओंने उससे कहा, 'तुम देश-काल और मूर्खताके जाननेवाले, बुद्धिमान्, शूरवीर और दृढ़प्रतिज्ञ हो, इसलिये हम सबकी सलाहसे तुम हमारे सरदार बन जाओ। तुम हमें जैसी-जैसी आज्ञा दोगे वंसा-वंसा ही हम करेंगे। तुम माता-पिताके समान हमारी यथोचित रीतिसे रक्षा करो।'।

इसपर कायव्यने कहा—प्यारे भाइयो ! तुम कभी स्त्री, डरपीक, बालक और तपस्वीपर हाथ न उठाना तथा जो युद्ध न करना चाहता हो, उसका वध न करना। स्त्रियोंको कभी बलात्कारसे मत पकड़ना, स्त्री-हत्यासे सर्वथा बचकर रहना, ब्राह्मणोंके हितका सर्वदा ध्यान रखना, उनकी रक्षाके लिये आवश्यकता हो तो युद्ध भी करना, सत्यका कभी परित्याग न करना और जिन घरोंमें देवता, पितर और अतिथियोंका पूजन होता हो, उनमें कभी विघ्न मत डालना। समस्त प्राणियोंमें ब्राह्मण ही विशेषरूपसे रक्षा करनेके योग्य हैं, इसलिये आवश्यकता हो तो अपना सर्वस्व लगाकर भी उनकी सेवा करनी चाहिये। देखो, ब्राह्मणलोग कुपित होकर जिसका अनिष्ट-चिन्तन करने लगते हैं, उसकी तीनों लोकोंमें कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जो पुरुष ब्राह्मणोंकी निन्दा करता है अथवा उनका नाश करना चाहता है, उसका सूर्योदय होनेपर अन्धकारके नाशके समान अवश्य ही नाश हो जाता है। जो मनुष्य सत्पुरुषोंको दुःख देता है, शास्त्रमें उसका वध करनेको आज्ञा है। दण्डका विधान दुष्टोंके दमनके लिये ही हुआ है, अपना धन बढ़ानेके लिये नहीं। दस्युजातिमें उत्पन्न होकर भी जो धर्मशास्त्रके अनुसार आचरण करते हैं, वे लुटेरे होनेपर भी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। (देखो, ये सब बातें तुम्हें मंजूर हों तो मैं तुम्हारा सरदार बन सकता हूँ।)

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! तब उन सबने कायव्यकी आज्ञाका ही अनुसरण किया। इससे उन सभीकी उन्नति हुई और उन्होंने पाप करना भी छोड़ दिया। इस पुण्यकर्मसे कायव्यने भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त की; क्योंकि ऐसा करके उसने सत्पुरुषोंकी रक्षा कर ली और दस्युओंकी पापसे बचा लिया। जो पुरुष नित्यप्रति इस कायव्यचरितका मनन करता है, उसे किसी भी प्रकारके प्राणियोंसे भय नहीं होता।

राजाके लिये धनसंग्रहके स्थान तथा अनागत विपत्तिसे सावधान रहनेमें तीन मत्स्योंका दृष्टान्त

भीष्मजी बोले—राजन् ! जिन उपायोंसे राजालोग अपना कोप भरते हैं, उनके विषयमें महात्मालोग ब्रह्माजीकी कही हुई कुछ गायाएँ कहा करते हैं। राजाको यत्नानुष्ठान करनेवाले द्विजोंका धन नहीं लेना चाहिये और देवोत्तर सम्पत्तिको भी नहीं छूना चाहिये। हाँ, लुटेरोंका और जो लोग धर्म-कर्म नहीं करते, उनका धन वह ले सकता है। जो पुरुष हविष्यान्नके द्वारा देवता, पितर और अतिथियोंका

पूजन नहीं करता, उसके धनको धर्मज्ञ पुरुष निरर्थक बतते हैं। धार्मिक राजाको ऐसा धन छीनकर प्रजाका पालन करना चाहिये। जो राजा ऐसे दुष्ट पुरुषोंसे धन छीनकर उसे सत्पुरुषोंको देता है, वह सब प्रकारके धर्मोंको जाननेवाला है। जिस प्रकार पृथ्वीको धूल पीसनेसे और भी महीन हो जाती है, उसी प्रकार विचार करनेसे धर्मका स्वरूप उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता जाता है।

युधिष्ठिर ! जो पुत्र्य समयसे पहले ही कार्यकी व्यवस्था कर लेता है उसे 'अनागतविधाता' कहते हैं और जिसे ठीक समयपर ही काम करनेकी युक्ति दृग्गम जाती है, वह 'प्रत्युत्पन्नमति' कहा जाता है। ये दो ही सुख पा सकते हैं, दीर्घमूर्खी तो नष्ट हो जाता है। मैं दीर्घमूर्खीके कर्तव्या-कर्तव्यके निश्चयको लेकर एक मुग्ध आस्थान सुनाता हूँ, सायधान होकर सुनो। एक तालाबमें, जिसमें थोड़ा ही जल था, बहुत-सी मछलियाँ रहती थीं। उसमें तीन कार्य-कुशल मत्स्य भी थे। वे तीनों एक साथ ही रहा करते थे। उनमें एक दीर्घकालन (अनागतविधाता), दूसरा प्रत्युत्पन्न-मति और तीसरा दीर्घमूर्खी था। एक दिन कुछ मछरोंने उस तालाबसे सब ओर नाशियाँ निकालकर उसका पानी आस-पासकी नीची भूमिमें निकालना आरम्भ कर दिया। तालाबका जल घटता देखकर दीर्घवर्षोंने आगामी भयकी शङ्कासे अपने दोनों साथियोंसे कहा, 'भालूम होता है इस जलाशयमें रहनेवाले सभी प्राणियोंपर आपत्ति आनेवाली है, इसलिये जयतक हमारे निकलनेका मार्ग नष्ट न हो तबतक शीघ्र ही हमें यहाँसे चले जाना चाहिये। यदि आपलोगोंको भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिये किसी दूसरे स्थानको चलो।' इसपर दीर्घमूर्खीने कहा, 'तुमने बात तो ठीक ही कही है, किंतु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनेकी चाहिये।' फिर प्रत्युत्पन्नमति बोला, 'अजो ! जब समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालनेमें कभी नहीं

चूकती।' उन दोनोंका ऐसा विचार देखकर महामति दीर्घवर्षी तो उसी दिन एक नालीमें होकर गहरे जलाशयमें चला गया।

कुछ समय बाद जब मछरोंने देखा कि उस जलाशयका जल प्रायः निकल चुका है तो उन्होंने कई जालोंमें उसकी सब मछलियोंको फँसा लिया। सबके साथ दीर्घमूर्खी भी जालमें फँस गया। जब मछरोंने जाल उठाया तो प्रत्युत्पन्न-मति भी सब मछलियोंमें घुसकर मृतक-सा होकर पड़ गया। वे जालमें फँसे हुई उन सब मछलियोंको लेकर दूसरे गहरे जलवाले तालपर आये और उन्हें उसमें धोने लगे। इसी समय प्रत्युत्पन्नमति जालमेंसे निकलकर जलमें घुस गया, किंतु मानवबुद्धि दीर्घमूर्खी अचेत होकर मर गया।

इस प्रकार जो पुत्र्य मोहवसा अपने स्तिरपर आये हुए कालको नहीं देख पाता वह दीर्घमूर्खी मत्स्यके समान जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूँ पहलेहीसे अपनी मत्ताईका उपाय नहीं करता, वह प्रत्युत्पन्नमति नामक मच्छके समान संशयकी स्थितिमें पड़ जाता है। इसीसे कहा है कि अनागतविधाता और प्रत्युत्पन्नमति—ये दो सुखी रहते हैं और दीर्घमूर्खी नष्ट हो जाता है। श्रुतियोंने इन्हींको धर्मशास्त्र और मोक्षशास्त्रमें प्रधान अधिकारी माना है तथा ये ही ऐश्वर्यके भी अधिकारी हैं। जो पुत्र्य उचित देश और कालमें, सोच-समझकर, सायधानीसे अच्छी तरह अपना काम करता है, वह अवश्य उसका फल प्राप्त कर लेता है।

शत्रुओंसे घिरे हुए राजाके कर्तव्यके विषयमें विशाल और चूहेका आख्यान

राजा युधिष्ठिरने पूछा—भरतधेष्ठ ! मैं उस बुद्धिके विषयमें सुनना चाहता हूँ, जिसका आश्रय लेतेसे राजा शत्रुओंसे घिरा रहनेपर भी मोहमें नहीं पड़ता। जब अनेकों बलवान् शत्रु किसी दुर्बल राजाको सब प्रकारसे हड़प जानेके लिये तैयार हो जायें तो उस असहाय और अकेले राजाको क्या करना चाहिये ? वह उनसेसे किसके साथ युद्ध करे और किसके साथ संधि तथा यदि बलवान् होनेपर भी वह शत्रुओंके बीचमें फँस जाय तो उसे कैसा बतवि करना चाहिये ? राजाके लिये तो सब कर्तव्योंमें यही प्रधान है और आप-जैसे सत्यसंध एवं जितेन्द्रिय महापुरुषके सिखा और कोई इस विषयको कह भी नहीं सकता। अतः आप अच्छी तरह विचारकर यही विषय सुनाइये।

भीष्मजी बोले—वेदा ! तुमने जो प्रश्न पूछा है वह उचित ही है। आपत्तिके समय क्या करना चाहिये यह बात

सबको मालूम नहीं है। मैं तुम्हें यह सब रहस्य सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मित्र-मित्र कापोंका ऐसा प्रभाव होता है, जिसके कारण कभी शत्रु मित्र बन जाता है तो कभी मित्रका भी मन बिगड़ जाता है ! वास्तवमें यह शत्रु-मित्रकी परिस्थिति सदा एक-सी नहीं रहती। अतः अपने कर्तव्य-अकर्तव्य तथा देश-कालका विचार करके किसीपर विरवाह और किसीके साथ युद्ध करना चाहिये। यदि प्राण संकटमें आ पड़े तो शत्रुओंसे भी मेल करके उनकी रक्षा करनी चाहिये। इस विषयमें एक बटवृक्षपर रहनेवाले बिलाल और मूषकका संवादरूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है।

किसी वनमें एक बहुत बड़ा बटका वृक्ष था। वह बहुत-सी लता और बरीहोंसे आच्छादित था और उसपर अनेकों पक्षियोंने बसेरा कर रखा था। वह वनमें बड़ी दूरतक फैला हुआ, संबी-संबी बालियोंसे युक्त और मेघके

समान सघन था। उसकी छायामें बड़ी ठंडक थी। उस वृक्ष-पर अनेकों सर्प और जंगली जीव विश्राम करते थे। उसीकी जड़में सी दरवाजोंका विल घनाकर पलित नामका एक बुद्धिमान् चूहा रहता था तथा उसकी शाखापर लोमश नामका एक विलाव था। वह बहुत समयसे पक्षियोंको खाकर बड़े आनन्दसे वहीं अपने दिन बिता रहा था। एक बार एक चाण्डालने उस वनमें आकर डेरा डाल दिया। वह सूर्यास्त होनेपर नित्य ही अपना जाल फेंका देता था और उसकी तंतकी डोरियोंको यथास्थान लगाकर मौजसे अपने झोंपड़ेमें जा सोता था। रातमें अनेकों जंगली जीव उस जालमें फँस जाते थे, उन्हें वह सबेरे आकर पकड़ लेता था। विलाव यद्यपि बहुत सावधान रहता था, तो भी एक दिन वह उस जालमें फँस गया। यह देखकर पलित चूहा निर्भय होकर वनमें अपना आहार खोजने लगा। इतनेहीमें उसकी दृष्टि जीवोंको लुभानेके लिये चाण्डालके डाले हुए मांसखण्डोंपर पड़ी। अतः वह जालपर चढ़कर उन्हें खाने लगा। मांस खानेमें वह तल्लीन था और मन-ही-मन अपने बन्धनमें पड़े हुए शत्रुपर हँस रहा था। इतनेहीमें उसकी दृष्टि एक दूसरे शत्रुपर पड़ी। यह था हरिण नामका न्यूला, जो वहाँ पृथ्वीमें विल घनाकर रहता था। चूहेकी गन्ध पाकर वह तुरंत ही अपने विलसे निकल आया। इधर तो यह न्यूला अपना भक्ष्य पकड़नेके लिये जीम लपलपाते हुए पृथ्वीपर खड़ा था, उधर चूहेने ऊपरकी ओर देखा तो उसे वटकी शाखापर बँठा हुआ अपना एक शत्रु और भी दिखायी दिया। यह वटके खोखलेमें रहनेवाला चन्द्रक नामका उल्लू था। इस प्रकार उल्लू और न्यूलेके बीचमें पड़कर उस चूहेको बड़ा भय हुआ और वह चिन्तामें डूब गया।

इसी समय उसे एक विचार सूझा। वह सोचने लगा, 'जब कोई जीव आपत्तिमें पड़कर विनाशके समीप पहुँच जाय तो उसे जैसे यने अपने प्राणोंकी रक्षा करनी चाहिये। इस समय मेरे ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है उसमें सभी ओरसे प्राण जानेकी आशङ्का है। यदि मैं पृथ्वीपर उतरकर भागता हूँ तो न्यूला मुझे खा जायगा, यहाँ रहता हूँ तो उल्लू उठा ले जायगा और यदि जाल फाट देता हूँ तो विलाव नहीं छोड़ेगा। परंतु ऐसी स्थितिमें भी मुझ-जैसे बुद्धिमान्को घबराना नहीं चाहिये। विलाव मेरा कट्टर शत्रु है, किंतु इस समय यह बड़ी विपत्तिमें पड़ गया है। अच्छा, देखूँ तो सही, अपने स्वार्थके लिये भी यह मूर्ख मेरी बात मानता है या नहीं। सम्भव है, विपत्तिप्रस्त होनेके कारण इस समय यह मुझसे मेल कर ले। आचार्योंका ऐसा

मत है कि विपत्ति आ पड़नेपर जीवनरक्षाके लिये बलवान् व्यक्तिको अपने समीपवर्ती शत्रुसे भी मेल कर लेना चाहिये। बुद्धिमान् शत्रु भी अच्छा होता है और मूर्ख मित्र भी किसी कामका नहीं होता। अब मेरे जीवनकी रक्षा तो मेरे शत्रु विलावके ही द्वारा हो सकती है, अतः मैं इसे इसके जीवनकी रक्षाके लिये सम्मति देता हूँ।'

तब उस परिणामदर्शी चूहेने विलावको समझाते हुए इस प्रकार कहा, 'भैया विलाव! अभी जीवित हो न? मैं इस समय तुमसे एक मित्रकी तरह बोल रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवनकी रक्षा हो जाय; क्योंकि इसमें हम दोनोंका ही हित है। भैया! डरो मत, तुम आनन्दसे जीवित रह सकते हो। यदि तुम मुझे मारना न चाहो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। मैंने मनमें खूब विचार करके अपने और तुम्हारे लिये एक उपाय सोचा है, उससे हम दोनोंका एक-सा हित हो सकता है। देखो, ये न्यूला और उल्लू मेरी घातमें बड़े हुए हैं। अभी इन्होंने मुझपर आक्रमण नहीं किया है, इसीसे अबतक मैं बचा हुआ हूँ। चपलनयन उल्लू डालपर बँठा हुआ हू-हू कर रहा है और मेरी ओर ही ताक लगाये हुए है। इस पापीसे मुझे बड़ा डर लगता है। सत्यरूपोंमें तो सात पग साथ-रहनेसे ही मित्रता हो जाती है; तुम भी बड़े बुद्धिमान् हो, इसलिये मेरे मित्र हो। अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं है और मैं इतने दिन साथ रहनेका अपना धर्म निमाऊँगा। तुम मेरी सहायताके बिना स्वयं तो इस जालको काट नहीं सकोगे। हाँ, यदि तुम मुझे न मारो तो मैं तुम्हारा बन्धन काट सकता हूँ। इसीसे मेरी इच्छा है कि हम दोनोंमें प्रीति बढ़े और नित्यप्रति हमारा समागम हुआ करे। देखो, जब कोई पुरुष लकड़ीका सहारा लेकर किसी गहरी नदीको पार करता है तो वह उस लकड़ीको किनारे लगा देता है और वह लकड़ी उसे पार पहुँचा देती है। इसी तरह हम दोनोंका भी मेल हो सकता है। मैं तुम्हें इस विपत्तिसे पार कर दूँगा और तुम मुझे आपत्तिसे बचा लोगे।'

इस प्रकार जब पलित चूहेने दोनोंके हितकी बात कही तो उसे युधितयुक्त और माननेयोग्य समझकर उस बुद्धिमान् विलावने अपनी दशापर दृष्टि डालकर उसकी बड़ी सराहना की और फिर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगा, 'सौम्य! तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इस समय अवश्य मैं बड़ी आपत्तिमें पड़ गया हूँ और मुझसे भी बढ़कर तुम्हारे ऊपर विपत्ति भँडरा रही है। अतः हम दोनों आपत्तिप्रस्तोंमें शीघ्र ही संधि हो जानी चाहिये। मैं समयानुसार अवश्य तुम्हारा

काम बनानेका प्रयत्न कहेगा, यह विपत्ति टल जायगी तो तुम्हारा उपकार ध्येय नहीं होगा। इस समय मेरा मान भंग हो चुका है, तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति हो रही है। अब तो मैं तुम्हारी शरणमें हूँ और जैसा तुम कहोगे वैसा ही कहेगा।

सोमराके इस प्रकार कहनेपर पलितने उससे ये अभि-
प्रायपूर्ण वचन कहे, 'इस समय मुझे न्यौतेसे बड़ा डर लग रहा है, मैं तुम्हारे नीचे छिप जाना चाहता हूँ। तुम मेरी रक्षा करना, मार मत डालना। इधर यह पापी उल्लू मेरे प्राणोंका प्राहूक बना हुआ है, इससे भी तुम मुझे बचा लो। इसके बाद मैं तुम्हारा जाल काट दूँगा—यह बात मैं तुमसे सत्यकी शपथ करके कहता हूँ।'

चूहेकी यह युक्तियुक्त बात सुनकर सोमरा ने उसकी ओर हर्षमयी दृष्टिसे देखा और स्वागतद्वारा सत्कार करते हुए उससे सुहृदतापूर्वक कहा, 'तुम जल्दी ही यहाँ आ जाओ, भगवान् तुम्हारा भङ्गल करें, तुम तो मेरे प्राणके समान प्रिय सखा हो। इस समय तो तुम्हारी कृपासे ही मेरी प्राणरक्षा होगी। इसलिये मित्र ! आओ, हम-सुम दोनों संधि कर लें। भैया ! इस संकटसे छूट जानेपर मैं अपने मित्र और बन्धु-बान्धवोंके सहित तुम्हारे समीप प्रिय और हितकारके काम करता रहूँगा।'

चूहा बोला, 'सौम्य ! इस आपत्तिसे बच जानेपर मैं भी तुम्हारी प्रीति सम्पादन कहेगा। जब तुम मेरा प्रिय करोगे तो मैं भी अवश्य तुम्हारा हित कहेगा। मर्दाप उपकारका बहुत कुछ बदला देनेपर भी वह पहली बार उपकार करने-
वालेके सत्कर्मको बराबरी नहीं कर सकता; क्योंकि पीछे-
याला तो उपकृत होनेपर ही उपकार करता है, किन्तु पहले उपकार करनेवाला किसी कारणसे बंसा नहीं करता।'

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार बिलावकी उसका स्वार्थ अच्छी तरह समझकर चूहा आनन्दसे उसकी गोदमें जा बैठा। बिलावने भी उसे ऐसा निःशङ्क कर दिया कि वह माता-पिताकी गोदके समान उसकी छातीसे लगकर सो गया। जब थोले और उल्लूने उसे बिलावकी गोदमें छिपा देखा तो वे निराशा हो गये और उनकी ऐसी गहरी प्रीति देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। अन्तमें निराशा होकर वे अपने-अपने स्थानकी चले गये। चूहा देश-कालकी पतिके अच्छी तरह जानता था, इसलिये वह बिलावके शरीरपर चढ़कर चाण्डालके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए धीरे-धीरे जालको काटने लगा। बिलाव बन्धनके खेदसे ऊब उठा था। उसने देखा कि चूहा जालको काटनेमें कुतूहल नहीं कर रहा है, इसलिये उसे जल्दी करनेके लिये उकसाते हुए कहा, 'सौम्य ! तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो। देखो,

चाण्डाल आता होगा, उसके आनेसे पहले ही मेरे बन्धनोंको काट दो।'

इसपर पलितने उससे कहा, 'भैया ! चुप रहो, धबराओ मत। मैं समयको खूब समझता हूँ, ठीक अवसर आनेपर कभी नहीं झूकूँगा। जो काम असमयमें किया जाता है उससे करनेवालेका हित नहीं होता, किन्तु यदि उसे ठीक समयपर किया जाय तो उससे बड़ा साम हो सकता है। यदि मैंने समयसे पहले ही तुम्हें छड़ा दिया तो तुम्हें मुझको भय हो सकता है। इसलिये तुम समयकी प्रतीक्षा करो, ऐसी जल्दी क्यों करते हो ? जिस समय मैं देखूँगा कि चाण्डाल हृषियार लिये हुए इधर आ रहा है, उस समय तुम्हें सामान्य-सा भय होता देखकर ही मैं तुम्हारे बन्धन काट डालूँगा। उस समय छूटते ही तुम्हें भयवश वृषपर चढ़ना ही सुझेगा और मैं अपने बिलमें घुस जाऊँगा।'

चूहेकी ये बातें सुनकर बिलावने कहा, 'अच्छे आदमी मित्रके कामोंको प्रेमपूर्वक किया करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। देखो, मैंने तो तुम्हें आपत्तिमें देखकर सुरत ही बचा लिया था। इसी तरह तुम्हें भी कुतूहलसे साप मेरा हित करना चाहिये। तुम ऐसा उपाय करो, जिससे हम दोनोंहीका भला हो। यदि अज्ञानवश पहले कभी मेरे द्वारा तुम्हारा कोई अहित हुआ हो तो उसे तुम मनमें मत साना। मैं तुमसे सभा माँगता हूँ, तुम मेरे प्रति अपना मनोमालिन्य दूर कर दो।'

चूहा बड़ा बुद्धिमान् और नीतिज्ञ था, उसने बिलावसे कहा, 'जिस मित्रसे भयकी सम्भावना हो, उसका काम इस प्रकार करना चाहिये, जैसे बाजीगर सपके मूँहसे हाथ बचाकर ही उसे खेलाता है। जो व्यक्ति बलवान्के साथ संधि करके अपनी रक्षाका ध्यान नहीं रखता, उसका वह मेल अपभ्य-
भोजनके समान हितकर नहीं होता। ऐसे मित्रके कामकी अधूरा ही रचना चाहिये। जब चाण्डाल आ जायगा तो भयके कारण तुम्हें भागनेकी ही सुझेगी, उस समय तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगे। मैंने बहुत-से तन्तु तो काट डाले हैं, अब केवल एक बोरी बाकी है। उसे मैं उसी समय काट दूँगा, तुम धबराओ मत।'

इसी तरह बात करते-करते वह रात बीत गयी। सोमराके मनमें बराबर भय बढ़ता गया। सबेरा होते ही परिध नामका चाण्डाल हाथमें शस्त्र लिये आता दिखायी पड़ा। वह साक्षात् यमदूतके समान जान पड़ता था। उसे देखते ही बिलाव भयसे ध्याकुल हो गया। उसे भयभीत देखकर चूहेने तुरंत ही जाल काट दिया। जानते छूटते ही बिलाव उसी पंङ्पर चढ़ गया और चूहा उस भयंकर शत्रुके पंजेसे छूटकर अपने बिलमें घुस गया। चाण्डालने उलट-



पुनःकर जानको सब ओरसे देखा और फिर निराम हो उसे उठाकर अपने घर चला गया ।

उस आपत्तिसे छूटकर पेड़की शाखापर बंटे हुए लोमशने विलमें छिपे हुए पलितसे कहा, 'धैर्य ! तुम मुझसे कोई बातचीत किये बिना इस प्रकार सहसा विलमें क्यों घुस गये ? मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूँ, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है । क्या तुम्हें मेरी ओरसे कोई शङ्का है ? तुमने विपत्तिके समय मेरा विश्वास किया और फिर मुझे जीवनदान दिया । तुम्हारी जैसी शक्ति थी, उसके अनुसार तुमने मेरा पूरा सत्कार किया है । अब तो मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ और तुम्हें मेरे साथ इस मित्रताका सुख भोगना चाहिये । मेरे जो भी मित्र और वन्धु-बान्धव हैं, वे सब तुम्हारी इसी प्रकार सेवा करेंगे जैसे शिष्ययोग मुझको करते हैं । मैं भी तुम्हारी और तुम्हारे मित्र एवं वन्धु-बान्धवोंका पूरा सत्कार करूँगा । भला, ऐसा कौन कृतज्ञ होगा जो अपने जीवनदाताका सत्कार न करना चाहेगा । तुम मेरे, मेरे मरीखों और मेरे घरके स्वामी हो; मेरी जो कुछ सम्पत्ति है उसके तुम्हीं व्यवस्थापक बनो । तुम बड़े बुद्धिमान् हो, आजमे मेरा मन्त्रित्व स्वीकार करो और पिताके समान मुझे गुरुपदेन दो । मैं अपने जीवनकी भाष्य करके कहता हूँ, अब तुम मुझसे किसी प्रकारका भय मत मानो । बुद्धिमें तो तुम साक्षान्

शुभाचार्य ही हो । अपने मन्त्रयत्नसे जीवनदान देकर तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया है ।'

विलासकी ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातें सुनकर परमनीतिज्ञ चूहने कहा, 'भाईसाहब ! जिसका जीवन रहते हुए पुरुष अपना स्वार्थ सघटा देखता है और जिसके घर जानेसे अपनी हानि मानता है, वही उसका मित्र बन सकता है और यह मित्रता भी तभीतक निभती है, जबतक अपने स्वार्थसे विरोध नहीं आता । मित्रता कोई स्थायी रहनेवाली चीज तो है नहीं और शत्रुता भी सदा नहीं चली रहती । स्वार्थकी अनुकूलता और प्रतिफलतासे ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं । कमी-कमी समयके फेरसे मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रुते भी मित्रता हो जाती है । जो व्यक्ति मित्रोंका सर्वदा विश्वास करता है और शत्रुओंसे सदा सार्धक बना रहता है, नीति-शास्त्रपर वृष्टि रखकर किसीसे प्रेम नहीं करता, उसका किसी समय सर्वथा मूलोच्छेद हो जाता है । पिता, माता, पुत्र, मामा, भानजे तथा और सब सगे-सम्बन्धी स्वार्थके लिये ही एक-दूसरेसे बंधे रहते हैं । अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता है तो मां-बाप उसे त्याग देते हैं । संसारमें सब लोग सर्वदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं, इसलिये तुम स्वार्थकी ही सवफा सार समझो । सब जीव स्वार्थके ही साथी हैं । संसारमें मुझे तो किलोफा भी प्रेम अकारण नहीं जान पड़ता । यद्यपि कमी-कमी क्रोधयुक्त भाइयोंमें और पति-पत्नियोंमें भी फूट पड़ जाती है, तथापि स्वभावतः उनमें प्रेम रहता ही है । दूसरे लोगोंसे इस प्रकारकी प्रीति नहीं हो सकती । दूसरेसे तो कुछ मिलनेसे अथवा मीठी-मीठी बातें सुननेसे ही प्रेम होता है । हमारी प्रीति भी एक विशेष कारणसे ही हुई थी । अब जब यह कारण नष्ट हो गया तो प्रीति भी नहीं रही । बताओ, अब किस कारणकी लेकर मैं यह समझूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो ? मित्रता और शत्रुताके भाव तो सबलोकें समान क्षण-क्षणमें बदलते रहते हैं । आज ही तुम मेरे शत्रु हो सकते हो और आज ही मित्र बन सकते हो । पहले भी हमारी प्रीति तभीतक थी, जबतक उसका कारण बना हुआ था । वह काम पूरा होनेपर अब हम फिर आपसमें शत्रु हो गये हैं । तुम्हारा काम पूरा हो चुका और मेरी भी विपत्ति दूर गयी । अब तो मुझे सा जानेके सिवा तुम्हारा मुझसे कोई और प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । मैं तुम्हारा भक्ष्य हूँ और तुम मुझे खानेवाले हो, मैं कुर्वल हूँ और तुम चलवान् हो । हमारी शक्ति समान नहीं है, इसलिये अब अलग हो जानेपर हमारी संधि नहीं हो सकती । मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तुम्हें भूख लगी हुई है और यह तुम्हारा भोजन करनेका समय है । इसलिये मुझे फुरताकर तुम अपना भक्ष्य पाना चाहते हो । इसीसे अपने

स्त्री-मुद्रोंके बीचमें बैठकर तुम मुझसे मिल करने चले हो। परंतु मित्र ! तुम मेरी जो सेवा करना चाहते हो, उसे करानेकी मुझमें योग्यता नहीं है। जब तुम्हारे प्रिय पुत्र और स्त्री मुझे तुम्हारे पास बंटा देखेंगे तो वे मुझे चट करनेमें क्यों चूकेंगे ? इसलिये मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हमारे समगमका जो कारण था वह तो श्रेय था। जो अपना-साधु हो, दुष्ट हो, कष्टमें पड़ा हुआ हो, भूला हो और भोजनकी तलारामें हो उसके पास थोड़ी-सी भी बुद्धि रखने-वाला ध्वस्त कैसे जा सकता है ? इसलिये भैया ! तुम्हारा कल्याण हो; लो, मैं तो जाता हूँ, मुझे तो दूरसे भी तुम्हारा भय लगा हुआ है। अब, तुम भी लौट जाओ। यदि तुम्हें मेरे किये हुए उपकारका ध्यान है तो सर्वदा सत्यमात्र बनाये रहना, कभी अवसर पाकर मुझे दबोच मत बैठना। यदि वास्तवमें स्वार्थपर तुम्हारी बुद्धि नहीं है तो बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम कहूँ ? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ परंतु अपने-आपको नहीं दे सकता। अपनी रक्षा करनेके लिये तो संतान, राज्य, रत्न और धनादि सभीका त्याग किया जा सकता है। अधिक क्या, सारा सर्वस्व सुटाकर भी जीवको अपनी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि हमने सुना है, जीवित रहनेवालेको ये फिर भी मिल जाते हैं।'

पतितने जब इस प्रकार खरी-खरी सुनायो तो बिलावने लज्जित होकर कहा, 'माई ! मैं सत्यकी सौगन्ध खाता हूँ, मित्रसे द्रोह करना तो बड़ी बुरी बात है। तुमने मेरी भलाई की—इसे तो मैं तुम्हारी बुद्धिमान्नी ही समझता हूँ। तुमने बड़ी नीतियुक्त बात कही है, तुम्हारा विचार मुझसे पूरा-पूरा मिलता है, किंतु इस विषयमें तुम्हें मेरी ओरसे कोई विपरीत बात नहीं समझनी चाहिये। तुमने प्राणदान देकर मेरे साथ मित्रता की है और मैं भी धर्मको जाननेवाला, गुणप्राही और हृत्तन हूँ। विरोधतः तुम्हारे प्रति तो मेरा बहुत ही प्रेम है। इसलिये तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा ही धर्तव्य करना चाहिये। तुम्हारे कहनेसे तो मैं अपने बन्धु-आद्यबन्धु-सहित प्राण भी त्याग सकता हूँ। हम-जैसे मनस्वियोंमें तो सभी बुद्धिमानोंका विरवास हो जाता है। अतः तुम्हें मेरे ऊपर कोई शङ्का नहीं करनी चाहिये।'

इस प्रकार बिलावने जब बहुत प्रशंसा की तो गम्भीर-स्वभाव धूहेने कहा, 'आप वास्तवमें बड़े साधु हैं। आपके मुलसे मैंने जो कुछ सुना है वह बहुत ठीक है। उससे मुझे प्रसन्नता भी है। परंतु मैं आपमें विरवास नहीं कर सकता। इस सम्बन्धमें शूचाचार्यजीने दो बातें कही हैं, आप उनपर ध्यान दें—(१) जब दो शत्रुओंपर एक-सी विपत्ति आ पड़े तो निर्बलको सबल शत्रुके साथ मिल करके बड़ी सावधानी

और मुक्तिसे काम करना चाहिये और जब काम हो चुके तो उसका विरवास नहीं करना चाहिये। (२) जो अविश्वास-पात्र हो उसमें कभी विरवास न करे और जो विश्वसनीय हो उसमें भी अत्यन्त विरवास न करे तथा अपने प्रति तो सर्वदा दूसरोंका विरवास पैदा करे, किंतु स्वयं दूसरोंका विरवास न करे। नीतिशास्त्रकार भी संशेषमें यही सार है कि किसीका विरवास न करना ही अच्छा है। अतः शत्रुके प्रति विरवास न रखनेमें ही जीवका विरोध हित माना गया है। सोमशजी ! आप-जैसै तो मुझे सर्वदा अपनी रक्षा करनी ही चाहिये। इसी प्रकार आप भी अपने जन्मसाधु चाण्डालसे बचे रहें।'

चाण्डालका नाम सुनते ही बिलाव बहुत डर गया और वहसि सपककर दूसरी जगह चला गया तथा घूहा अपने बिलमें घुस गया।

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार दुर्वल और अकेला होनेपर भी पतित धूहेने अपने बुद्धिबलसे कई प्रबल शत्रुओंको छका दिया। अतः आपसिके समय बुद्धिमान् पुरुषको शत्रुके साथ भी मिल कर लेना चाहिये। देखो, भयक और बिलाव-ये दोनों एक-दूसरेका आश्रय लेकर विपत्तिसिद्ध हुए थे। इस दृष्टान्तसे मैंने तुम्हें सावधमंचा भाग्य ही बिलाया है। जो पुरुष भय आनेसे पहले ही उससे साराङ्क रहता है, उसके सामने प्रायः भयका अवसर नहीं आता। परंतु जो निःशङ्क होकर दूसरोंमें विरवास कर लेता है, उसे बड़े भारी भयका सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य निर्भय विचरता है, वह किसी प्रकार दूसरोंको सलाह भी नहीं सुनता, किंतु जो अपनेको अज्ञानी समझता है, वह बार-बार आप्त-पुरुषोंके पास जाता है। अतः मनुष्यको निर्भयता दिखाने हुए भी डरते रहना चाहिये और विश्वास प्रदर्शित करते हुए भी दूसरोंका विरवास नहीं करना चाहिये।

राजन् ! इस प्रकार संधि और विग्रहके समयका विचार करके संकटसे छूटनेका उपाय करे। जब अपने और शत्रुके ऊपर समानरूपसे आपत्ति आ पड़े तो बलवान् शत्रुके साथ मिल कर ले। उसके साथ रहते हुए बड़ी मुक्तिसे काम करे और काम पूरा हो जानेपर फिर उसका विरवास न करे। यह नीति अर्थ, धर्म और काम—तीनोंको सिद्ध करनेवाली है। इसके अनुष्ठान आचरण करके तुम अमृदय प्राप्त करी और अपनी प्रजाका पालन करी। ब्राह्मणोंके साथ तुम सर्वदा संसर्ग रखना। उनका साथ इहलोक और परलोक दोनों ही जगह परमकल्याणकारी है। राजन् ! मैंने तुम्हें जो धूहे और बिलावका दृष्टान्त सुनाया है, वह संधि और विग्रह दोनोंही विषयमें विशेष बुद्धि देनेवाला है। राजाको सर्वदा इसप्रकार ध्यान रखते हुए शत्रुओंके साथ व्यवहार करना चाहिये।

शत्रुसे राधा सावधान रहनेके विषयमें राजा ब्रह्मवत्त और पूजनी चिड़ियाका प्रसंग तथा ब्राह्मणसेवाका माहात्म्य

राजा युधिष्ठिरने पूछा—महाबाहो ! आपने कहा कि मत्तर्भावात कभी विषयात नहीं करना चाहिये, सो यदि राजा किरातियों भी विषयात न करे तो यह किस प्रकार राज्याकी व्यवस्था करेगा ? आपकी यह आज्ञाकारण-कथा सुनकर तो मेरी बुद्धि बड़ी उलझनमें पड़ गयी है, कृपया आप मेरा यह संशय दूर कर दीजिये ।

श्रीदमजी बोले—राजन् ! इस विषयमें राजा ब्रह्मवत्तका अपने महलमें रहनेवाली पूजनी नामकी चिड़ियासे संवाद हुआ था, यह तुम सुनो । राजा ब्रह्मवत्तका महल कर्मिपत्न्य नामसे था । उसके अन्तःपुरमें बहुत दिनोंसे पूजनी नामकी एक चिड़िया रहती थी । यह सिरम्योनिमें उत्पन्न होनेपर भी सब प्राणियोंकी मोली समक समती थी । यहाँ उसके एक बच्चा भी पैदा हुआ और उसके दिन रातके भी एक कुमारसे जन्म लिया । पूजनी नियमप्रति समुद्राटपर जाती और यहाँसे ये फल खाती थी । उनमेंसे एक यह राजकुमारको ये देती और दूसरेसे अपने बच्चीका पोषण करती । पूजनीका लया हुआ फल अमृतके समान स्वादिष्ट और बल तथा रीजकी वृद्धि करनेवाला होता था । उस फलको खा-खाकर राजपुत्र ब्रह्म बृद्ध-बृद्ध हो गया । एक दिन प्राय उरो भोगमें लिये भ्रम रही थी, इतनेहीमें बालककी वृद्धि पूजनीके बच्चेपर पड़ी । राजकुमार अपने बाल्यवनाचरते प्रायकी मोयमेंसे किरात भया और उस बच्चेके साथ खेलने लगा । यहाँ खेलनेमें जोरसे बसोबस उराने यह बच्चा मार डाला और फिर प्रायकी भोगमें लया गया । जब पूजनी फल लेकर लौटी तो उसने देखा कि राजकुमारसे उराना बच्चा मार डाला है । अपने बच्चीकी ऐसी कुर्बानि देकर उसकी आँखोंमें आँसू भर आये, यह दृश्यसे व्याकुल हो गयी और इस प्रकार कहने लगी, 'शिरम्योत संग करना अथवा उरते प्रीति या भेल-मिलाप करना ठीक नहीं है । ये सम्बन्ध अपकार ही करते हैं, इनपन कभी विषयात नहीं करना चाहिये । देखो, यह राजकुमार केसत प्रतापन, दूर और विषयातवाती है; अलख, आज मैं इससे हम संरक्षन पूरा-पूरा करता हूँगी ।' ऐसा सोचकर उसने अपने बच्चोंसे राजकुमारके बच्चों में भेल कोड़ किये ।

यह भेलकर राजा ब्रह्मवत्तने विचार किया कि पूजनीके राजकुमारसे उसके कुतर्भावा ही नवला लिया है; इसलिये वह उससे कहने लगा, 'पूजनी ! हमने तेरा अपराध किया था, तूने उतीका बचला लिया है । अब हम दोनों भयानक हो



गये; इसलियेजान मू अचरसे यहाँ रह, किराती दूरारी जगद मत जा ।'

पूजनी बोली—राजन् ! जब किरातोंसे घेर बंध जायतो उसकी चिकनी-सुगन्धी मातोंमें आकर विषयात नहीं करना चाहिये । ऐसा करनेसे घेर तो दूर होता नहीं, यह विषयात करनेवाला ही मारा जाता है । जब एक बार घेर बंध जाता है तो घेरे-घोतेसक उराना बचला लिये बिना नहीं छोड़ले । इसलिये जिराने विषयातपात किया हो, उराना कभी विषयात नहीं करना चाहिये । जो अधिव्यवसायीय हो उराना विषयात न करे और जो विषयातनीय हो उराना भी अत्यन्त विषयात न करे । विषयातके कारण उत्पन्न होनेवाली विषात जीवका समूल नाश कर डालती है । अतः जब आपसमें घेर बंध गया तो हमारा भेल होना सम्भव नहीं है । मैं जिस निमित्तसे यहाँ रहती थी अब यह मन्ट हो गया । मैं बहुत दिनोंतक बड़े भावसे आपके महलमें रहती । किंतु अब हमारा घेर टन गया; इसलिये मुझे शीघ्र ही यहाँसे जाना होगा ।

ब्रह्मवत्तने कहा—जो कथित अपकारके बदलेमें अपकार करता है, वह अपराधी नहीं माना जाता । इससे तो अपकार

करनेवाला ऋणमुक्त हो जाता है। इसलिये तू आनन्दसे यहाँ रह, कहीं मत जा।

पूजनी बोली—राजन्! जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है, उनका मेल नहीं हो सकता। वह बात दोनोंहीके हृदयोंमें टटकती रहती है।

ब्रह्मदत्तने कहा—पूजनी! इससे तो बर शान्त हो जाता है और अनकार करनेवालेको पापका फल भी नहीं मोगना पड़ता। इसलिये अपकार सहनेवाले और अपकारीका मेल तो फिर भी हो ही सकता है।

पूजनी बोली—इस प्रकार बर कभी दूर नहीं होता और यह समझकर कि शत्रुने मुझे सान्त्वना दी है, उसका विश्वास भी नहीं करना चाहिये। ऐसे अवसर पर विश्वास करनेसे प्राणोंसे भी हाथ धोना पड़ता है, इसलिये फिर मुंह न दिखाना ही अच्छा है।

ब्रह्मदत्तने कहा—यदि आपसमें बर रखनेवाले भी साथ-साथ रहें तो उनमें स्नेह हो जाता है, फिर उनमें बर नहीं रहता।

पूजनी बोली—राजन्! पण्डितसीध अच्छी तरह जानते हैं, बर पांच कारणोंसे हुआ करता है—स्त्रीके कारण, घर और जमीनके कारण, शूद्रों वाणीके कारण, आपसकी लाग-डाँटके कारण और अपराधके कारण। जिस प्रकार बड़वानल किसी भी प्रकार शान्त नहीं होता वैसे ही क्रोधान्नि भी धनसे, समझानेसे या डाँटने-डपटनेसे ठंडी नहीं पड़ती। बरके कारण उत्पन्न होनेवाली आग एक पक्षको स्वाहा किये बिना कभी शान्त नहीं होती। जिसने पहले अपकार किया हो वह धन और मानद्वारा बहुत सत्कार करे तो भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिये। अबतक तो न मैंने आपका कोई अपकार किया था और न आपने ही मेरी कोई हानि की थी, इसलिये मैं आपके महलमे रहती थी। किंतु अब मुझे आपका विश्वास नहीं हो सकता।

ब्रह्मदत्तने कहा—पूजनी! संसारमें तरह-तरहकी क्रियाएँ कालके ही कारण होती हैं, कालको प्रेरणासे ही लोग विविध कर्मोंमें प्रवृत्त हो रहे हैं। इनमें कौन किसका अपराध करता है। जन्म और मृत्युका प्रेरक भी समानरूपसे काल ही है। कालके कारण ही जीवके जीवनका अन्त होता है। इसलिये जो कुछ हुआ है, उसमें मैं तेरा कोई अपराध नहीं समझता। तू यहाँ आनन्द से रह, तुझे कोई कष्ट नहीं पहुँचावेगा। तुमसे जो अपराध बन गया है, उसे मैंने क्षमा किया, अब तू भी मुझे क्षमा कर दे।

पूजनी बोली—यदि आप कालको ही सब क्रियाओंका कारण मानते हैं तो किसी का किसीके साथ बर नहीं होना

चाहिये। फिर अपने सगे-सम्बन्धियोंके मारे जानेपर लोग उनका बदला क्यों लेते हैं और शोकाकुल होकर इतनी हाय-हाय क्यों करते हैं? वास्तवमें दुःखके कारण ही सबको उद्वेग होता है, मुख तो सभीको प्रिय है और दुःखके अनेकों रूप हैं। युद्धपा दुःख है, धनक्षय दुःख है, अग्रिय पुरयोंके साथ रहना दुःख है और प्रियजनोंसे विच्छेदना दुःख है। घय और गन्धनसे भी सबको दुःख होता है तथा स्त्रीके कारण और स्वाभाविक रूपसे भी दुःख होता ही है। राजन्! आपने मेरा जो अपकार किया है और मैंने आपका जो अपराध किया है, उन्हें हम तो धर्ममें भी नहीं मूल सकते। इस प्रकार आपसमें एक-दूसरेका अपकार करनेके कारण अब हमारा मेल नहीं हो सकता। आप जैसे-जैसे अपने पुत्रकी दुर्गतिको याद करोगे वैसे-वैसे ही आपका बर ताजा होता रहेगा। अब इस मरणान्त वरके ठन जानेपर आप जो प्रीति करना चाहते हैं, वह इसी प्रकार असम्भव है जैसे मिट्टीका धड़ा एक बार फूट जानेपर फिर नहीं जुड़ता। अब किसी कुलमें दुःखदायी वर बंध जाता है तो वह शान्त नहीं होता। उसे याद दिसानेवाले बने ही रहते हैं; इसलिये जबतक कुलमें एक भी प्यव्रित धना रहता है तबतक यह खुनस नहीं मिटती। इसलिये किसीका कुछ विगाड़ कर देनेपर फिर राजाको उसका विश्वास नहीं करना चाहिये।

ब्रह्मदत्तने कहा—अविश्वास करनेसे तो मनुष्य संसारमें कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मनमें एक प्रकारका भी भय बना रहे तो उसका जीवन ही मिट्टी हो जायगा।

पूजनी बोली—राजन्! जिसके दोनों परोंमें घोट लगी हो और फिर भी वह परोंसे ही चलता रहे तो चाहे कंसी ही सावधानीसे चले उसके परोंमे धाब हो ही जायगा। जो पुरुष अपने रोगी नेत्रोंको हवाके सामने खुले रखता है उसके नेत्रोंमें बाष्पके कारण अवश्य ही बहुत पोंड़ा बड़ जायगी। जो पुरुष अपनी शक्तिका विचार न करके अज्ञानवशा भयानक मार्गमें चल पड़ता है, उसका जीवन उस मार्गमें ही समाप्त हो जाता है। जो किसान थपकि समयका विचार न करके खेत जोतता है, उसका परिधम थप्य होता है और उसे अनाज नहीं मिलता। जो पुरुष हितकारी भोजन करता है उसके लिये वह अन्न अमृतरूप हो जाता है। परंतु जो परिणामका विचार न करके कुपथ्य सेवन करता है उसके जीवनका अन्त तो उस अन्नके साथ ही मममो। दंब और पुरयधर्म—ये दोनों एक-दूसरेके आश्रयसे रहते हैं, किंतु उदार पुरुष सर्वदा शुभकर्म किया करते हैं और मनुष्यक बंधके भरसे पड़े रहते हैं। जो पुरुष कर्मको छोड़ बंठना है, वह दरिद्रताके बंधुगममें फँसकर

सदा अनर्थोंका शिकार बना रहता है। अतः मनुष्यको सर्वस्वकी वाजी लगाकर भी अपना हित करना चाहिये। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य—ये पाँच मनुष्यके स्वभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान्लोग सर्वदा इनके सहवासमें रहते हैं। घर, सोना, चाँदी, पृथ्वी, स्त्री और सुहृद्गण—ये मध्यम कोटिके मित्र हैं; ये मनुष्यको सभी जगह मिल सकते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान् होता है, वह सभी जगह आनन्दमें रहता है। बुद्धिमान्के पास थोड़ा-सा धन हो तो वह भी बढ़ता रहता है। वह दक्षतापूर्वक काम करते हुए संयमके द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। किंतु बुद्धिहीन पुत्र घर, धरती, स्वदेश और स्वजनोकी चिन्तामें ग्रस्त रहकर सदा दुखी बना रहता है। यदि अपनी जन्मभूमिमें भी रोग और दुर्भिक्षादिका कष्ट हो तो वहाँसे अन्यत्र चला जाय; यदि रहना हो तो सदा सम्मानपूर्वक ही रहे। इसलिये अब मैं दूसरी जगह जाऊँगी, यहाँ रहना मेरे लिये सम्भव नहीं है। दुष्टा भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित सम्बन्ध और दुष्ट देशको तो दूरसे ही छोड़ देना चाहिये। कुपुत्रपर भला कैसे विश्वास हो सकता है, दुष्टा भार्यामें प्रेम होना कैसे सम्भव है? कुराज्यमें शान्ति मिलना असम्भव ही है और दुष्ट देशमें भी कैसे निर्वाह हो सकता है? कुमित्रका स्नेह कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिये उससे मेल बना रहना कठिन ही है। स्त्री तो वही है जो मधुर भाषण करे, पुत्र वही है जिससे सुख मिले, मित्र वही है जिसमें विश्वास हो और देश वही है जहाँ निर्वाह हो सके तथा राजा उसे ही समझना चाहिये जिसके शासनमें किसी प्रकारका बलात्कार न होत हो, लोग निर्भय हों और गरीबोंका पालन होता हो। जिस देशका राजा गुणवान् और धर्मपरायण होता है वहाँ स्त्री, पुत्र, मित्र, सम्बन्धी और वन्द्य-चान्दय सभीकी अनुकूलता हो जाती है। अधर्मों राजाके अत्याचारसे तो प्रजाका सत्यानाश हो जाता है। वास्तवमें धर्म, अर्थ, काम—इन तीनोंका मूल राजा ही है; इसलिये उसे सावधान रहकर सर्वदा अपनी प्रजाका पालन करना चाहिये। राजाको कररूपसे प्रजाकी आमदनीका छठा भाग लेकर उसे उचित कर्मोंमें खर्च करना चाहिये। जो राजा प्रजाकी अच्छी तरह रक्षा नहीं करता वह तो चोरके समान है। प्रजाको अभयदान देकर यदि राजा धनके लोभसे वंसा बर्ताय नहीं करता तो सारी प्रजाका पाप बटोरकर अन्तमें

नरकमें जाता है और यदि वह अभय देकर वंसा ही आचरण भी करता है तो प्रजाका धर्मानुसार पालन करनेके कारण वह सबको सुख देनेवाला समझा जाता है। प्रजापति मनुने गुणोंकी दृष्टिसे राजाको माता, पिता, गुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर और यमरूप बताया है। प्रजापर प्रेम रखनेके कारण वह राष्ट्रका पिता है। वह प्रजाका पालन करता है और दीन-दुस्त्रियोंकी भी सुधि लेता रहता है इसलिये माताके समान है। प्रजाका अनिष्ट करनेवालोंको वह अग्निके समान जलाता रहता है और यमराजके समान दुष्टोंका दमन करता है। अपने प्रीति-भाजनोंको धन देनेके कारण वह कुबेरके समान है, धर्मोपदेश देनेके कारण गुरु है और प्रजाकी रक्षा करनेके कारण रक्षक है। जो राजा अपने गुणोंसे सब नागरिकोंको प्रसन्न रखता है उसके राज्यका कभी नाश नहीं होता। जिसे पुरवासी और देशवासियोंको प्रसन्न रखनेकी कला आती है वह राजा इहलोक और परलोकमें सुख पाता है। जिस राजाकी प्रजा सर्वदा करके भारसे पीड़ित और तरह-तरहके अनर्थोंसे दुखी रहती है, उसे जरूर नीचा देखना पड़ता है। इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवरमें कमलोंके समान विकसित होती रहती है, वह सब प्रकारके पुण्यफलोंका भागी होता है और स्वर्गलोकमें भी सम्मान पाता है।

भीष्मजी कहते हैं—राजन्! ब्रह्मदत्तसे इस प्रकार कहकर उसकी आज्ञा ले वह चिड़िया स्वच्छानुसार चली गयी। इस प्रकार मैंने तुम्हें राजा ब्रह्मदत्त और पूजनीके सम्भाषणका प्रसंग तो सुना दिया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! क्या कोई ऐसी मर्यादा भी है जिसका किसीको उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये? आप सभी सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं, कृपया उसका वर्णन कीजिये।

भीष्मजी बोले—मनुष्यको सर्वदा विद्यावृद्ध, तपस्वी, शास्त्रज्ञ और सदाचारनिष्ठ ब्राह्मणोंकी सेवा करनी चाहिये। यह बड़ा ही पवित्र कार्य है। तुम जैसा भाव देवताओंमें रखते हो वंसा ही ब्राह्मणोंमें भी रखो। ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं तो मनुष्यको बड़ा सुयश मिलता है और वे अप्रसन्न हो जाते हैं तो उसके लिये बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है। ब्राह्मण प्रसन्न रहें तो अमृतके समान होते हैं और कोप करने लगें तो साक्षात् विष हो जाते हैं।

शरणागतकी रक्षा करनेके विषयमें एक बहेलिया और कपोत-कपोतीका प्रसंग

राजा युधिष्ठिरने पूछा—बादाजी! शरणागतकी रक्षा करनेवाले पुष्टका क्या कर्तव्य है—यह आप मुझे सुनाइये।

भीष्मजी बोले—राजन्! शरणागतकी रक्षा करना बड़ा भारी धर्म है। ऐसा प्रश्न तुम्हें अवश्य पूछना चाहिये। सिद्धि आवि राजाओंते तो शरणागतोंकी रक्षा करके ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ऐसा भी सुना जाता है कि एक कबूतरने अपना मांस देकर शरणागत शत्रुका विधियन् सत्कार किया था।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! कबूतरने शरणागत शत्रुको अपना मांस किस प्रकार खिलाया था और इससे उसे कौन सद्गति प्राप्त हुई थी?

भीष्मजी बोले—राजन्! सुनो, यह कथा समस्त पापोंको नष्ट करनेवाली है और परशुरामजीने राजा मुचुकुन्दको सुनायी थी। पूर्वकालमें राजा मुचुकुन्दने परशुरामजीसे यही बात पूछी थी। उसकी सुननेकी इच्छा देखकर परशुरामजीने उसे यह कथा, जिसमें कबूतर के मुक्त होनेका प्रसंग वर्णित है, सुनायी थी।

परशुरामजीने कहा—राजन्! मैं तुम्हें धर्मके निर्णय और अभीष्ट अर्थसे युक्त एक कथा सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। किसी समय एक सधन वनमें एक बड़ा ही डरावना बहेलिया रहता था। उसके शरीरका रंग कीएके समान काला था। उसके शूर कर्मके कारण उसे सगो-सम्बन्धिघोषों भी त्याग दिया था। वस्तुतः जिसका आचरण पापपूर्ण हो, उसे बुद्धिमान् पुष्टियोंकी दूरसे ही त्याग देना चाहिये। जो मनुष्य शूर, दुष्टहृदय और प्राणिमोंकी हत्या करनेवाले होते हैं, उन्हें सर्वोंकी तरह सब प्राणियोंसे उद्वेग प्राप्त होता है। उसका तो नित्यका यही काम था कि जाल लेकर वनमें जाता और बहुतसे पक्षियोंको मारकर उन्हें याजारमें बेच आता। इसके सिवा कोई दूसरी जीविका उसे अच्छी ही नहीं लगती थी।

एक बार जब यह वनमें ही था, बड़े जोरकी आंधी चलने लगी। एक क्षणमें ही आकाशमें घटाएँ छा गयीं और बिजली कड़कने लगी। इन्द्रदेवने भूसत्ताधार दर्या करके बात-की-बातमें सारी पृथ्वीको जलमय कर दिया। दर्याके वेगते अनेकों पक्षी भरकर पृथ्वीपर गिर गये। इसी समय उस बहेलियेकी वृष्टि एक कबूतरीपर पड़ी जो शीतले टिटुरकर पृथ्वीपर गिर गयी थी। इस समय घटापि यह स्वयं भी बड़े

कष्टमें था, तो भी उसने उसे उठाकर पिंजड़ेमें बन्द कर लिया। यह पापात्मा था और पाप ही करता रहता था, इसलिये इस समय भी उसने पाप ही किया। इतनेहीमें उसे बुझोके कुंजमें एक मेघके समान सधन विशाल वृक्ष दिखायी दिया। उसपर अनेकों पक्षियोंने बसेरा किया था। बोझी ही देरमें बादल फट गये और आकाश स्वच्छ हो गया। बहेलिया जाइसे बहुत ठिठुर रहा था। उसने इधर-उधर देखकर विचार किया, 'यहसे मेरी भोषड़ी तो बहुत दूर है, अच्छा, आज यहाँ ठहर जाऊँ।' ऐसा सोचकर उस पेड़के नीचे ही रात बितानेके विचारसे उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, 'इस पृथ्वी जो वेयता नियास करते हों, मैं उनकी शरण लेता हूँ।' इस प्रकार प्रार्थना करके यह पक्षी बिछावर एक शिलापर सिर रखकर सो गया।

राजन्! उस वृक्षकी शाखापर बहुत दिनोंसे एक कबूतर रहता था। उसकी कबूतरी सबेरेसे ही चुग लेने लगी थी और अभीतक सोटकर नहीं आयी थी। इस समय रात हुई देखकर उस कबूतरको बड़ा खेद हुआ। वह कहने लगा, 'अरे! आज तो बड़ी आंधी-बर्षा थी और मेरी प्यारी कबूतरी अभीतक नहीं आयी। उसके अभीतक न सोटनेका क्या कारण हो सकता है? वनमें न जाने वह कुशलसे भी होगी या नहीं? उसके बिना तो आज मेरा यह पीसला उजड़ा-सा जान पड़ता है। वास्तवमें घरको घर नहीं कहते—गृहिणीको ही 'घर' कहते हैं। जिस घरमें गृहिणी न हो वह तो वनके ही समान है। यदि आज मेरी मधुरभाषिणी-प्रिया न सीटी तो मैं इस जीवनको रखकर भी क्या करूँगा? यह ऐसी पतिप्रतापी कि मेरे महाप्रेम बिना महाती नहीं थी और मेरे भोजन किये बिना भोजन नहीं करती थी। इसी प्रकार मेरे बंध जानेपर ही बंटती और सो जानेपर ही सोती थी। यदि मुझे प्रसन्न देखती तो उसका मुख भी खिल जाता और उबास देखती तो स्वयं भी खिन्न हो जाती। मैं कहीं बाहर जाने लगता तो उसका चेहरा उतर जाता और कभी श्लोघ करता तो यह मोटे-मोटे शब्द सुनाकर मुझे शान्त कर देती। यह बड़ी ही पतिप्रतापी, पतिके आश्रित और पतिका प्रिय करनेमें तत्पर रहनेवाली थी। वह तपस्विनी मेरे प्रति बड़ा प्रेम और अनुराग रखती है और मेरी बड़ी भक्त है। पुष्टके के धर्म, अर्थ और काममें स्त्री ही प्रधानतया सहायता करनेवाली होती है। विदेशमें भी वही विरयतन्वीय मित्रका काम करती है। पुष्टकी सर्वोत्तम सम्पत्ति उसकी भार्या ही कही जाती है। जो पुष्ट्य रोगसे

सदा अनर्थोंका शिकार बना रहता है। अतः मनुष्यको सर्वस्वकी वाजी लगाकर भी अपना हित करना चाहिये। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य—ये पांच मनुष्यके स्वामाविक मित्र हैं। बुद्धिमान् लोग सर्वदा इनके सहवासमें रहते हैं। घर, सोना, चाँदी, पृथ्वी, स्त्री और सुहृद्गण—ये मध्यम कोटिके मित्र हैं; ये मनुष्यको सभी जगह मिल सकते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान् होता है, वह सभी जगह आनन्दमें रहता है। बुद्धिमान्के पास थोड़ा-सा धन हो तो वह भी बढ़ता रहता है। वह दक्षतापूर्वक काम करते हुए संयमके द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। किंतु बुद्धिहीन पुरुष घर, धरती, स्वदेश और स्वजनोंकी चिन्तामें प्रस्त रहकर सदा दुखी बना रहता है। यदि अपनी जन्मभूमिमें भी रोग और दुर्भाग्यादिका कष्ट हो तो वहाँसे अन्यत्र चला जाय; यदि रहना हो तो सदा सम्मानपूर्वक ही रहे। इसलिये अब मैं दूसरी जगह जाऊँगी, यहाँ रहना भेरे लिये सम्भव नहीं है। दुष्टा भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित सम्बन्ध और दुष्ट देशको तो दूरसे ही छोड़ देना चाहिये। कुपुत्रपर भला कैसे विश्वास हो सकता है, दुष्टा भार्यामें प्रेम होना कैसे सम्भव है? कुराज्यमें शान्ति मिलना असम्भव ही है और दुष्ट देशमें भी कैसे निर्वाह हो सकता है? कुमित्रका स्नेह कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिये उससे भेल बना रहना कठिन ही है। स्त्री तो वही है जो मधुर भाषण करे, पुत्र वही है जिससे सुख मिले, मित्र वही है जिसमें विश्वास हो और देश वही है जहाँ निर्वाह हो सके तथा राजा उसे ही सम्भ्राना चाहिये जिसके शासनमें किसी प्रकारका बलात्कार न होता हो, लोग निर्भय हों और गरीबोंका पालन होता हो। जिस देशका राजा गुणवान् और धर्मपरायण होता है वहाँ स्त्री, पुत्र, मित्र, सम्बन्धी और बन्धु-बान्धव सभीकी अनुकूलता हो जाती है। अधर्मो राजाके अत्याचारसे तो प्रजाका सत्यानाश हो जाता है। वास्तवमें धर्म, अर्थ, काम—इन तीनोंका मूल राजा ही है; इसलिये उसे सावधान रहकर सर्वदा अपनी प्रजाका पालन करना चाहिये। राजाको कररूपसे प्रजाकी आमदनीका छठा भाग लेकर उसे उचित कर्मोंमें खर्च करना चाहिये। जो राजा प्रजाको अच्छी तरह रक्षा नहीं करता वह तो चोरके समान है। प्रजाको अभयदान देकर यदि राजा धनके लोभसे वंसा घटावे नहीं करता तो सारी प्रजाका पाप बटोरकर अन्तमें

नरकमें जाता है और यदि वह अभय देकर वंसा ही आचरण भी करता है तो प्रजाका धर्मानुसार पालन करनेके कारण वह सबको सुख देनेवाला सम्भ्राना जाता है। प्रजापति मनुने गुणोंकी दृष्टिसे राजाको माता, पिता, गुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर और यमरूप बताया है। प्रजापर प्रेम रखनेके कारण वह राष्ट्रका पिता है। वह प्रजाका पालन करता है और दीन-दुखियोंकी भी सुधि लेता रहता है इसलिये माताके समान है। प्रजाका अनिष्ट करनेवालोंको वह अग्निके समान जलाता रहता है और यमराजके समान दुष्टोंका दमन करता है। अपने प्रीति-भाजनोंको धन देनेके कारण वह कुबेरके समान है, धर्मोपदेश देनेके कारण गुरु है और प्रजाकी रक्षा करनेके कारण रक्षक है। जो राजा अपने गुणोंसे सब नागरिकोंको प्रसन्न रखता है उसके राज्यका कभी नाश नहीं होता। जिसे पुरवासी और देशवासियोंको प्रसन्न रखनेकी कला आती है वह राजा इहलोक और परलोकमें सुख पाता है। जिस राजाकी प्रजा सर्वदा करके भारसे पीडित और तरह-तरहके अनर्थोंसे दुखी रहती है, उसे जरूर नीचा देखना पड़ता है। इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवरमें कमलोंके समान विकसित होती रहती है, वह सब प्रकारके पुष्पफलोंका भागी होता है और स्वर्गलोकमें भी सम्मान पाता है।

भीष्मजी कहते हैं—राजन्! ब्रह्मदत्तसे इस प्रकार कहकर उसकी आज्ञा ले वह चिड़िया स्वेच्छानुसार चली गयी। इस प्रकार मैंने तुम्हें राजा ब्रह्मदत्त और पूजनीके सम्भाषणका प्रसंग तो सुना दिया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! क्या कोई ऐसी मर्यादा भी है जिसका किसीको उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये? आप सभी सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं, कृपया उसका वर्णन कीजिये।

भीष्मजी बोले—मनुष्यको सर्वदा विद्यावृद्ध, तपस्वी, शास्त्रज्ञ और सदाचारनिष्ठ ब्राह्मणोंकी सेवा करनी चाहिये। यह बड़ा ही पवित्र कार्य है। तुम जैसा भाव देवताओंमें रखते हो वंसा ही ब्राह्मणोंमें भी रखो। ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं तो मनुष्यको बड़ा सुयश मिलता है और वे अप्रसन्न हो जाते हैं तो उसके लिये बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है। ब्राह्मण प्रसन्न रहें तो अमृतके समान होते हैं और कोप करने लगे तो साक्षात् विष हो जाते हैं।

शरणागतकी रक्षा करनेके विषयमें एक वहेलिया और कपोत-कपोतीका प्रसंग

राजा युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! शरणागतकी रक्षा करनेवाले पुरुषका क्या कर्तव्य है—यह आप मुझे सुनाइये।

भीष्मजी बोले—राजन् ! शरणागतकी रक्षा करना बड़ा भारी धर्म है। ऐसा प्रश्न तुम्हें अत्यन्त पृथक् चाहिये। सिद्धि आदि राजाओंने तो शरणागतोंकी रक्षा करके ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ऐसा भी सुना जाता है कि एक कर्भूतरने अपना मांस देकर शरणागत शत्रुका विधिवत् सत्कार किया था।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! कर्भूतरने शरणागत शत्रुको अपना मांस किस प्रकार खिलाया था और इससे उसे कौन सद्गति प्राप्त हुई थी ?

भीष्मजी बोले—राजन् ! सुनो, यह क्या समस्त पापोंकी नष्ट करनेवाली है और परशुरामजीने राजा मुचुकुन्दको सुनायी थी। पूर्वकालमें राजा मुचुकुन्दने परशुरामजीसे यही बात पृच्छी थी। उसकी सुननेकी इच्छा देखकर परशुरामजीने उसे यह कथा, जिसमें कर्भूतर के मुक्त होनेका प्रसंग वर्णित है, सुनायी थी।

परशुरामजीने कहा—राजन् ! मैं तुम्हें धर्मके निर्णय और अमोघ अर्थसे युक्त एक कथा सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। किसी समय एक सधन वनमें एक बड़ा ही डरावना भूहेलिया रहता था। उसके शरीरका रंग कौएके समान काला था। उसके क्रूर कर्मीके कारण उसे सगे-सम्बन्धियोंने भी त्याग दिया था। वस्तुतः जिसका आचरण पापपूर्ण हो, उसे बुद्धिमान् पुरुषोंको डरसे ही त्याग देना चाहिये। जो मनुष्य क्रूर, दुष्टदृष्ट और प्राणियोंकी हत्या करनेवाले होते हैं, उन्हें सर्पोंकी तरह सब प्राणियोंसे उद्वेग प्राप्त होता है। उसका तो नित्यका यही काम था कि जाल सेकर वनमें जाता और बहुतसे पक्षियोंको मारकर उन्हें बाजारमें बेच आता। इसके लिये कोई दूसरी जीविका उसे अच्छी ही नहीं लगती थी।

एक बार जब वह वनमें ही था, बड़े जोरकी आंधी चलने लगी। एक क्षणमें ही आकाशमें घटाएँ छा गयीं और बिजली कड़कने लगी। इन्द्रदेवने मूसलाघार वर्षा करके बात-की-बातमें सारी पृथ्वीको जलमय कर दिया। यद्यपि येगसे अनेकों पक्षी भरकर पृथ्वीपर गिर गये। इसी समय उस बहेलियेकी दृष्टि एक कर्भूतरीपर पड़ी जो शीतसे ठिठुरकर पृथ्वीपर गिर गयी थी। इस समय यद्यपि वह स्वयं भी बड़े

कष्टमें था, तो भी उसने उसे उठाकर पिंजड़ेमें बन्ध कर लिया। वह पापात्मा या और पाप ही करता रहता था, इसलिये इस समय भी उसने पाप ही किया। इतनेहीमें उसे यूरोंकी कुंजमें एक मेघके समान सधन विशाल वृक्ष दिलायी दिया। उसपर अनेकों पक्षियोंने बसेरा किया था। थोड़ी ही देरमें बादल फट गये और आकाश स्वच्छ हो गया। बहेलिया जाड़ेसे बहुत ठिठुर रहा था। उसने इधर-उधर देखकर विचार किया, 'यहसि मेरी भोपड़ी तो बहुत दूर है, अच्छा, आज यहीं ठहर जाऊँ।' ऐसा सोचकर उस पेड़के नीचे ही रात बितावनेके विचारसे उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, 'इस वृक्षपर जो देवता निवास करते हैं, मैं उनकी शरण सेता हूँ।' इस प्रकार प्रायना करके यह पक्षि बिछाकर एक शिलापर सिर रखकर सो गया।

राजन् ! उस वृक्षकी शाखापर बहुत दिनोंसे एक कर्भूतर रहता था। उसकी कर्भूतरी सबेरेसे ही घुगा लेने गयी थी और अमीतक लौटकर नहीं आयी थी। इस समय रात हुई देखकर उस कर्भूतरको बड़ा खेद हुआ। वह कहने लगा, 'अरे ! आज तो बड़ी आंधी-वर्षा थी और मेरी प्यारी कर्भूतरी धमीतक नहीं आयी। उसके अमीतक न लौटनेका क्या कारण हो सकता है ? वनमें न जाने वह फुसलसे भी होगी या नहीं ? उसके बिना तो आज मेरा यह घोंसला उजड़ा-सा जान पड़ता है। यास्तवमें घरकी धर नहीं कहते—गृहिणीकी ही 'धर' कहते हैं। जिस घरमें गृहिणी न हो वह तो वनके ही समान है। यदि आज मेरी मधुरभाषिणी-प्रिया न लौटी तो मैं इस जीवनको रखकर भी क्या करूँगा ? यह ऐसी पतिव्रता थी कि मेरे नहाने बिना नहाती नहीं थी और मेरे भोजन किये बिना भोजन नहीं करती थी। इसी प्रकार मेरे बैठ जानेपर ही बंठती और सो जानेपर ही सोती थी। यदि मुझे प्रसन्न देखती तो उसका मुख भी खिल जाता और उदास देखती तो स्वयं भी खिन्न हो जाती। मैं कहीं बाहर जाने लगता तो उसका चेहरा उतर जाता और कमी क्रोध करता तो वह मोठे-मोठे शब्द सुनाकर मुझे शान्त कर देती। वह बड़ी ही पतिव्रता, पतिके आश्रित और पतिका प्रिय करनेमें तत्पर रहनेवाली थी। वह तपस्विनी मेरे प्रति बड़ा प्रेम और अनुराग रखती है और मेरी बड़ी भजत है। पुरुष के धर्म, अर्थ और काममें स्त्री ही प्रधानतया सहायता करनेवाली होती है। विदेशमें भी यही विरचसनीय मित्रका काम करती है। पुरुषकी सर्वोत्तम सम्पत्ति उसकी भार्या ही कही जाती है। जो पुरुष रोगसे

पीड़ित हो और बहुत दिनोंसे विपत्तिमें फँसा हुआ हो उसके लिये भी स्त्रीके समान कोई दूसरी ओपधि नहीं है। पुरुषका स्त्रीके समान न तो कोई बन्धु है और न धर्मसाधनमें कोई वंसा सहायक है। जिसके घरमें साध्वी और मधुरभाषिणी भार्या नहीं है उसे तो वनमें चला जाना चाहिये। उसके लिये तो जँसा घर बँसा ही बन।

भीष्मजी कहते हैं—जब कबूतर इस प्रकार विलाप कर रहा था तो वहेलियेके पिजड़ेमें पड़ी हुई कबूतरनी उसका कण-कन्दन सुनकर कहा, 'अहो ! मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मेरे प्रिय पतिदेव इस प्रकार मेरा गुण गान कर रहे हैं। स्त्रीका इष्टदेव तो पति ही है। जिससे पतिदेव प्रसन्न नहीं रहते, वह पत्नी दावानलसे दग्ध हुए पुण्य और गुणोंके समान भस्म हो जाती है। अस्तु, अब मेरे वियगमें तो आप कोई चिन्ता न करें। मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आपसे हो सके तो एक शरणागतकी रक्षा कीजिये। देखिये, यह वहेलिया आपके निवासस्थानपर आकर सीधा है। यह ठंड और भूखसे व्याकुल है, आप इसका सत्कार कीजिये। स्वामिन् ! जगन्माता गी और ब्राह्मणका वध करनेवालेको जो पाप लगता है, वही शरणागतकी हिंसा करनेवालेको भी लगता है। भगवान्ने हमारी कापोती वृत्ति बना दी है। अपने जातिधर्मके अनुसार आप-जैसे मनस्वीको उसका आचरण करना चाहिये। जो गृहस्थ यथाशक्ति अपने आश्रमधर्मका पालन करता है, वह मरनेके पश्चात् अक्षयलोक प्राप्त करता है। अतः आप अपने देहकी ममता छोड़कर धर्म और अर्थपर दृष्टि रखते हुए इस वहेलियेका ऐसा सत्कार करें, जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाय। मेरे लिये अब आप कोई चिन्ता न करें। आपकी शरीरयात्राका निर्वाह करनेके लिये आपको दूसरी स्त्रियाँ मिल जायेंगी।' इस प्रकार पिजड़ेमें पड़ी हुई उस तपस्विनी कबूतरनी अपने पतिसे कहा और फिर अत्यन्त दुखी होकर पतिके मुँहकी ओर देखने लगी।

स्त्रीकी यह धर्मानुसार और युवितयुवत बात सुनकर कबूतरकी बड़ी प्रसन्नता हुई और उसकी आँखोंमें आनन्दाश्रु छलक आये। उसने निरन्तर पक्षियोंकी हिंसासे निर्वाह करनेवाले उस वहेलियेकी ओर देखकर उसका यथोचित स्वागत करते हुए कहा, 'कहिये, मैं आपको क्या सेवा करूँ ? आप हमारे घर पधारें हैं। घर आपका आतिथ्य करना यों तो सभीका कर्तव्य है, किन्तु पञ्चयज्ञके अधिकारी गृहस्थका तो यह प्रधान धर्म है। जो पुरुष गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी मोहवश पञ्चमहायज्ञ नहीं करता, उसे धर्मानुसार ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकारके सुख नहीं मिलते।

आपकी जो इच्छा हो कहिये; किसी प्रकारका दुःख न मानिये। आप अपने भूखसे जो कुछ कहेंगे मैं वही करूँगा।'

उसकी बात सुनकर वहेलियेने कहा, 'मुझे शीतसे बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिये कोई ठंडसे बचनेका उपाय करो।' यह सुनकर कबूतरने पृथ्वीपर पत्ते इकट्ठे कर दिये और उन्हें जलानेको चिंगारी लेनेके लिये बड़ी तेजीसे उड़ान लगायी। वह लुहारके घरसे अङ्गारा ले आया और उससे सूखे पत्तोंमें आग लगा दी। वहेलिया आग तापने लगा। इससे उसके शरीरमें गर्मी आ जानेसे उसके होश-हवाश ठिकानेपर आ गये। फिर उसने अत्यन्त आनन्दित होकर उबडबायी आँखोंसे कबूतरकी ओर देखते हुए कहा, 'मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे कुछ भोजन दो।'

वहेलियेकी बात सुनकर कबूतर इस चिन्तामें पड़ गया कि 'अब मुझे क्या करना चाहिये।' उस समय वह अपनी असमर्थतापर खेद प्रकट करने लगा। किन्तु कुछ ही देरमें उसे एक बात याद आयी और वह कहने लगा, 'अच्छा, थोड़ी देर ठहरिये, मैं अभी आपकी तृप्तिका उपाय किये देता हूँ।' ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तोंसे आग सुलगायी और फिर बड़े हर्षमें भरकर कहा, 'पहले ऋषि, देवता और महानुभाव पितरोंके भूखसे मैंने सुना है कि अतिथिसत्कार बड़ा भारी पुण्य है। सौम्य ! आज आप हमारे अतिथि हैं, इसलिये मैंने आपका सत्कार करनेका पक्का विचार कर लिया है। आप मुझपर



सदा कृपावृष्टि रखते ।' ऐसा कहकर वह पक्षी प्रसन्न वदनसे अग्निकी तीन परिभ्रमाएँ करके उतामें कूद पड़ा । कबूतरकी आगमें गिरा देखकर बहेलिया मन-ही-मन सोचने लगी, 'अरे ! मैंने यह क्या कर डाला ? हाय ! मैं गड़गड़ कर हूँ, मैं तो अपने कर्मसे ही निन्दनीय हूँ । निस्संदेह इससे तो मुझे बड़ा भारी पाप लागेगा ।' इस प्रकार उसने बड़ा विलाप किया और बार-बार अपने कर्मको निन्दा की ।

यद्यपि इस समय बहेलियेको बड़ी भूल लगी हुई थी, तो भी कबूतरको आगमें पड़ा देखकर यह कहने लगी, 'हाय ! मैं बड़ा ही क्रूर और मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर डाला ? मेरा तो जीवन ही दुःखमय है, मुझसे तो नित्य ऐसा ही पाप होता रहता है । मैं सर्वथा अविश्वसनीय, दुष्टवृद्धि और क्रूर विचारों-वाला हूँ । सारे शूभकर्मोंको छोड़कर मैंने यह पक्षियोंको फँसानेका ही धंधा स्वीकार किया है । देखो, यह कबूतर कैसा महात्मा है ? इसने अपनेको अग्निमें होमकर मुझे अपना भांस दिया । ऐसा करके इसने ही मुझे धर्मका भी उपदेश कर दिया है । अब मैं भी स्त्री और पुत्रोंका मोह छोड़कर अपने प्रिय प्राणोंको त्याग दूँगा । आजसे मैं सब प्रकारके भोगोंको त्यागकर भूल-प्यास और धूपको सहन करते हुए शरीरको सुखा डालूँगा और तरह-तरहसे उपवास करके अपना परलोक सुधाहूँगा । अहो ! अपना शरीर होमकर इस कबूतरने यह बता दिया कि अतिथिका सत्कार कैसे करना चाहिये । इसलिये अब मैं भी धर्मचरण कहूँगा, मनुष्यका सर्वोत्तम आश्रय धर्म ही है ।' ऐसा सोचकर उस बहेलियेने लाठी, शलाका, जाल और पिंजड़ेको फेंककर उस कबूतरकी भी छोड़ दिया और महाप्रत्यानका निश्चय करके वहाँसे तप करनेके लिये चल दिया ।

बहेलियेके चले जानेपर कबूतरकी पतिको स्मरण करके बहुत शोकाकुल हो गयी और दुःखसे विलाप करती हुई कहने लगी, 'प्रियतम ! मुझे याद नहीं कि कभी तुमने मेरा कोई अप्रिय कार्य किया हो । तुम नित्य ही मेरा सालन करते थे और बड़े आदरसे सत्कार करते थे । मैंने तुम्हारे साथ बहुत सुख भोगा है, आज मेरे लिये वह कुछ भी नहीं रहा । स्त्रीको पिता, माई और पुत्रसे तो थोड़ा-सा ही सहारा मिलता है, उसे अपार सुख देनेवाला तो पति ही है । अतः ऐसी कौन नारी है जो अपने पतिको आदर न करेगी । स्त्रीके लिये पतिके समान कोई नाथ नहीं और न पतिके

समान कोई सुख ही है । उसके लिये तो धन और सर्वस्वको छोड़कर पति ही एकमात्र गति है । नाथ ! अब तुम्हारे बिना मुझे इस जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ? ऐसी कौन सती स्त्री होगी जो पतिके बिना जीवित रहना चाहेगी ?' इसी प्रकार उस कबूतरने दुःखित होकर बहुत कण्ठमन्त्रन किया और फिर उस जलती हुई आगमें कूद पड़ी । उसने देखा कि उसका पति रंग-बिरंगे फूलोंकी माला और विचित्र वस्त्रामूषणसे सुसज्जित हुआ एक विमानपर बैठा है तथा अनेकों महापुरुष उसको सेत्रातमें उपस्थित हैं । इस प्रकार पुण्यकर्मा महात्माओंके संकड़ों विमानोंसे घिरा हुआ वह अपनी पत्नीके सहित स्वर्ग सिंघारा और वहाँ अपने पुण्यकर्मके प्रतापसे सत्कृत होकर स्त्रीके सहित आनन्दपूर्वक विहार करने लगा ।

बहेलियेने जब उन दोनोंको विमानपर चढ़कर आकाशमें जाते देखा तो उनकी ऐसी सद्गति देखकर उसे बड़ा अनुताप हुआ और वह सोचने लगा, 'मैं भी इनो प्रकार तपस्या करके परमगति प्राप्त बहूँगा ।' मनमें ऐसा विचार करके वह वहाँसे चल दिया और मगताहीन होकर पवनभादसे निर्वाह करता उद्यमरहित होकर एक कण्टकाकीर्ण बनमें घुसा । इससे उसका सारा शरीर काँटोसे छिलकर लोह-सुहान हो गया । इतनेहीमें वायुके कारण रण्ड लगनेसे बूझोंमें आग लग गयी । आग बड़ी प्रचण्ड थी । उसकी ऊँची-ऊँची ज्वालाओंसे सब ओर चिनगारियाँ फैलने लगीं और मृग तथा पक्षियोंसे भरा हुआ यह सारा बन जलकर धाक होने लगा । यह देखकर वह बहेलिया भी बड़ी प्रसन्नतासे शरीर छोड़नेके लिये उस प्रज्वलित अग्निकी ओर बढ़ा और दुरी-दुरी भस्म होकर परमगतिको प्राप्त हो गया । थोड़ी ही देरमें उसने देखा कि यह बड़े आनन्दसे स्वर्गमें विराजमान है तथा अनेकों यक्ष, गन्धर्व और सिद्धोंके बीचमें इन्द्रके समान शोभा पा रहा है ।

इस प्रकार वे कपोत, कपोती और बहेलिया तीनों ही अपने पुण्यके प्रतापसे स्वर्ग सिंघारे । जो स्त्री इस प्रकार अपने पतिको अनुसरण करती है, वह कपोतीके समान ही स्वर्गलोकमें विराजती है । राजन् ! शरणागतकी रक्षा करना बड़ा ही पुण्यका काम है । ऐसा करनेसे गोवध करने-वालेके पापका भी प्रापरिचय हो जाता है । इस पापनाशक पवित्र इतिहासको सुननेसे मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती और वह स्वर्गसुख प्राप्त करता है ।

अबुद्धिपूर्वक किये हुए पापकी निवृत्तिके विषयमें राजा जनमेजय और इन्द्रोत् मुनिका प्रसंग

राजा युधिष्ठिरने पूछा—जिज्ञासुह! यदि कोई पुत्र्य जनतामें किसी प्रकारका पाप-कर्म कर बैठे तो वह उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है?

नीलमयी बोले—राजन्! इस विषयमें गुरुकुलके बंगमें उत्पन्न हुए इन्द्रोत् मुनिने राजा जनमेजयको यी बात सुनायी थी, वही प्रसंग प्रसंग में तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्वकालमें पराजितका पुत्र राजा जनमेजय बड़ा ही पराक्रमी था। उसे जिना जाने ही ब्रह्महत्याका पाप लग गया। इसलिये उसने पुरोहित और सब ब्राह्मणोंसे उसका परित्याग कर दिया। इस पापकी अज्ञानसे वह रात-दिन जलता रहता था, इसलिये जन्ममें राज्य छोड़कर वनमें चला गया। वहाँ वह बड़ी तीव्र तपस्या करने लगा। उसने सारी पृथ्वीमें वेद-वेदार्थमें प्रश्नकृत हुए अनेकों ब्राह्मणोंसे ब्रह्महत्याकी निवृत्तिके लिये कोई प्राचरित्त पूछा। धूमते-धूमते वह महातरुकी गुरुकुलवासी इन्द्रोत् मुनिके पास पहुँच गया और उसने दोनों पैर पकड़ लिये। राजाकी देखकर ऋषिने बड़ा तिरस्कार किया और उससे कहा, 'मेरे महाप्राणी! तू यहाँ कैसे आ गया? मुझसे तुझे क्या ज्ञान है? तू यहाँ मे अयो चला आ, मुझे तेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मणकी मारनेके कारण तेरा चित्त अगुह हो गया है। तू निरन्तर पापका ही चिन्तन करता है, इसलिये तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यन्त क्षीरानय है। देख, तेरी ही करतूतसे मेरे पितरोंका वंश-परकर्म पड़ा है, उन्होंने तुझसे बौद्धी आचारों वाँच रखी थी, आज वे सब व्यर्थ हो गयी। जिसका पूजन करनेसे मनुष्य स्वर्ग, आयु, सुख और संज्ञान प्राप्त करते हैं, उन ब्राह्मणोंसे ही तू विना ज्ञान श्रेय करता है। अब अपने पापके कारण तू अनेकों व्यर्थक उल्लासित लिये तरकमें पड़ा रहेगा। वहाँ लोहके समान बौबोवाले गिद्ध और मोर तुझे नाँच-नाँचकर बुझी करोगे और उससे बाद भी तुझे किसी पापघोषिणमें ही जन्म लेना पड़ेगा। यदि तू ऐसा समझता हो कि अब इस लोकमें ही पापका कोई फल नहीं मिलता तो परलोकमें ही क्या रहता है, तो इस बातका निश्चय तुझे समझूँ करा दूँ।'

मुनिवर इन्द्रोत्के इस प्रकार कहनेपर राजा जनमेजयने कहा, 'मुने! मैं अबश्य धिक्कारके ही योग्य हूँ। अतः अपने मुने जो मतान्बुरा कहा है वह उचित ही है। मैं आजकी

१. मे पराजित और जनमेजय अर्जुनके पाँद और प्रसंग नहीं है।

दुःपत्का निवारि हूँ। मैं परित्यागिणमें अपनी सारी पाप-राशिको मत्स्य कर रहा हूँ। अपने कुकर्मापर दृष्टि जानेसे मेरे मनमें तनिक भी डैन नहीं है। मैं सब कहता हूँ, यमराजसे भी मुझे बड़ा भय लग रहा है। मेरे हृदयमें जो यह पापका काँडा छाल रहा है उसे निकालने बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। अतः आज मुझे इससे मुक्त होके कोई उपाय बताइये। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार मेरे बंगका नाश न हो, यह संसारमें बराबर बना रहे। अपने कर्मके लिये मुझे अत्यन्त खेद है; अब तो कैसे बने कैसे मेरी रक्षा कीजिये। पण्डितसंग जैसे बालककी बुद्धिपर ध्यान नहीं देते और पिता जैसे पुत्रके अनराजकी ओर नहीं देखते, उसी प्रकार मेरी बुद्धि और कर्मा पर ध्यान न देकर आज मुझपर प्रसन्न होइये।'

इन्द्रोत्ने कहा—तुम ब्राह्मणोंकी शक्ति और वेद-शास्त्रोंमें बढलाया हुआ उनका नाहातन्त्र तो जानते ही हो। इसलिये ब्राह्मणोंकी शरण लो और ऐसा काम करो, जिससे तुम्हें शान्ति मिले। प्रसन्न हुए ब्राह्मणोंकी शरण जानेसे ही तुम्हारी परलोकमें रक्षा होगी, अन्यथा यदि तुम अपने पापोंके लिये परचात्तन करते हो तो सब धर्मपर ही दृष्टि रखो।

जनमेजयने कहा—मैं अपने पापके कारण बहुत संतप्त हूँ। अब आगे मैं कर्मा धर्मका लोभ नहीं करूँगा। मुझे कल्याणकी इच्छा है और अब मैं आपकी सेवामें उपस्थित हूँ; इसलिये आप मुझपर प्रसन्न होइये।

इन्द्रोत्ने कहा—राजन्! मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम धर्म और मानकी छोड़कर मेरे प्रति सच्ची श्रुति रखो, समस्त प्राणिमोंके हितमें तत्पर रहो और अपने धर्मपर दृष्टि रखो। मैं अब केवल धर्म समझकर ही तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। इससे मेरा प्रदान उद्देश्य यही समझो कि तुम्हें ब्राह्मणोंके प्रति पूर्ण सद्भाव रखना चाहिये। तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मैं ब्राह्मणोंसे कभी द्रोह नहीं करूँगा।

जनमेजय बोला—नहन्। मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी मन, वचन या कर्मसे ब्राह्मणोंके साथ द्रोह न करूँगा।

इन्द्रोत्ने कहा—राजन्! अब तुम्हारा चित्त बढल गया है, इसलिये मैं तुम्हें धर्मका उपदेश करूँगा। लोग कहते हैं कि यदि राजा दुर्चरित्त हो तो अवश्य ही वह सारे राज्यको संतप्त कर डालता है। तुम भी पहले ऐसे ही थे किंतु अब तुम्हारी दृष्टि धर्मपर है। समस्त मनुष्य उदार,



कृपण या तपस्वी कुछ भी हो सकता है। किन्तु यदि बिना विचार किये कोई काम किया जाता है तो उससे दुःख ही होता है। प्रत्येक काम सोच-समझकर करना ही अच्छा है। यज्ञ, दान, दया, श्रम और सत्य—ये पाँचों ही पवित्र हैं। इनके सिवा अच्छी प्रकारसे किया हुआ तप भी परमपवित्र है और यही राजाको पूर्णतया पवित्र करनेवाला है। उसका अच्छी तरह अनुष्ठान करनेसे तुम परमकल्याणकारी धर्मकी उपलब्धि कर सकते हो। इसी प्रकार पवित्र क्षेत्रोंकी यात्रासे भी बड़ा पुण्य होता है। 'कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान है, उसकी अपेक्षा सरस्वती नदी अधिक पवित्र है, सरस्वतीसे भी दूसरे कई तीर्थें थ्यादा पवित्र हैं और उनमें भी पृथक्क विशेष पवित्र हैं। उसमें स्नान करने और उसका जल पीनेसे मनुष्यको चाहे वह कल ही क्यों न मर जाय, इसकी चिन्ता नहीं सताती अपूर्ण उसका जीवन सकल हो जाता है। यदि तुम महासरोवर, पुष्कर, प्रभास, उत्तर-मानसरोवर, कालोदक तथा वृषट्ठी और सरस्वती नदीके संगम मानसरोवर आदि तीर्थोंमें जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें शीघ्र आयु प्राप्त होगी।

इसके सिवा तुम्हें ब्राह्मणोंकी प्रसन्नता भी सम्पादन करनी चाहिये। वे तुम्हारा तिरस्कार करें और तरह-तरहसे तुम्हारी उपेक्षा करें तो भी तुम ऐसा नियम कर लो कि 'मैं उन्हें कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा।' इस प्रकार अपने सब काम करते हुए तुम परमकल्याण प्राप्त कर सकते हो। यदि मनुष्यसे कोई अत्याय बत जाय तो उसके लिये परचात्ताप करनेसे वह पापसे मुक्त हो जाता है। यदि दूसरी बार फिर पाप बत जाय तो 'अब फिर ऐसा काम नहीं करूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा करनेसे पापमुक्त हो सकता है तथा ऐसा निश्चय करे कि 'अब भविष्यमें सर्वदा धर्मका ही आचरण करूँगा' तो तीसरी बारके पापसे भी मुक्ति हो जाती है और यदि पवित्रमावसे तीर्थोंमें घ्रमण करता रहे तो अनेकों पापोंसे छूट जाता है। तपस्यामें सगे हुए मनुष्यके तो सब पाप तत्काल छूट जाते हैं। जिस मनुष्यकी कलंक लगा हो वह एक बर्षतक अग्निकी उपासना करनेसे उससे मुक्त हो सकता है। गर्महृत्वा करनेवाले पुरुषका पाप तीन बर्षतक अग्निकी उपासना करनेसे अथवा महासरोवर, पुष्कर, प्रभास और उत्तर-मानसरोवर आदि तीर्थोंमें सौ योजनतक यात्रा करनेसे छूट जाता है। जिस मनुष्यने जितने प्राणियोंकी हिंसा की हो वह उसी जातिके उतने ही प्राणियोंकी मृत्युसे रक्षा करे तो पापमुक्त हो जाता है। मनुजो कहते हैं कि जलमें डूबकी लगाकर तीन बार अथमर्षण-मन्त्र जपनेसे मनुष्य उसी प्रकार पापोंसे छूट जाता है जैसे अरबमेघ धराके भन्तमें अथमृष स्नान करनेसे। इससे तुरन्त ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सम्मान मिलता है और सब प्राणी प्रसन्न होकर उसके सामने जड़ एवं सूक्ष्मे समान हो जाते हैं। बृहस्पतिजीका मत है कि 'यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर बुद्धिपूर्वक पुण्य-कर्म करे तो इससे उसके पूर्व पापका इसी प्रकार नाश हो जाता है, जैसे सार लगा देनेसे घस्त्रका मूल छूट जाता है।' सूर्य जिस प्रकार प्रातःकाल उदित होकर रात्रिके सारे अन्धकारको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शुभकर्म करके मनुष्य अपने सभी पापोंका अन्त कर देता है।

भीष्मजी कहते हैं—'राजन्! राजा जनमेजयको इस प्रकार उपदेश देकर मुनिवर इन्द्रोत्तने उससे विधिपूर्वक अरबमेघ धरा कराया। इससे उसका सब पाप नष्ट हो गया और वह प्रज्वलित अग्निके समान वैदोष्यमान होने लगा।

मृतककी पुनर्जीवनप्राप्तिके विषयमें एक ब्राह्मणबालकके जीवित होनेका प्रसंग

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितानह ! क्या आपने कभी कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है जो एक बार मरकर फिर जी उठा हो ?

भीष्मजी बोले—राजन् ! पूर्वकालमें नैमिषारण्य-क्षेत्रमें गृध्र और गीदड़के संवादरूपसे एक घटना हुई थी, वह तुम सुनो । एकबार किसी ब्राह्मणका बड़ी कठिनतासे प्राप्त हुआ सुन्दर बालक बाल्यावस्थामें ही चल बसा । तब उसके कुछ सम्बन्धी शोकसे रोते-विलखते उसे लेकर श्मशानमें गये । वे बालकको हृदयसे लगाकर अत्यन्त करुणक्रन्दन करने लगे । उन्होंने उसे पृथ्वीपर रख तो दिया, किंतु वहाँसे लौटनेका साहस न कर सके । उनके रोनेका शब्द सुनकर वहाँ एक गृध्र आया और उनसे कहने लगा, 'अब तुम अपने इस एकमात्र बालकको छोड़कर चले जाओ, व्यर्थ विलम्ब मत करो । जो लोग अपने मृतक सम्बन्धियोंको लेकर श्मशानमें आते हैं और जो नहीं आते उन सभीको अपनी आयु समाप्त होनेपर संसारसे फूँच करना ही पड़ता है । यह श्मशानभूमि गृध्र और गीदड़ोंसे भरी हुई है, इसमें सर्वत्र नरककाल दिखायी पड़ रहे हैं; इसलिये यह सभी प्राणियोंके लिये भयावह है, आपलोगोंको यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिये । प्राणियोंकी गति ऐसी ही है कि एक बार कालके गालमें पड़ जानेपर फिर कोई जीव नहीं लौटता । इस मर्त्यलोकमें जो भी जन्मा है, उसे एक दिन अवश्य मरना होगा । देखो, अब सूर्यभगवान् अस्ताचलके अञ्चलमें पहुँच चुके हैं; इसलिये इस बालकका मोह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ ।'

युधिष्ठिर ! उस गृध्रकी बातें सुनकर वे सब लोग बालकको पृथ्वीपर लिटाकर वहाँसे रोते-विलखते चलने लगे । इतनेहीमें एक काले रंगका गीदड़ अपनी माँदमेंसे निकलकर वहाँ आया और उनसे कहने लगा, 'मनुष्यो ! वास्तवमें तुम बड़े स्नेहशून्य हो । अरे मूर्खों ! अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ । इतने डरते क्यों हो ? कुछ तो स्नेह निभाओ । सम्भव है, किसी शुभ घड़ीके प्रभावसे यह बालक जी ही उठे । तुम कैसे निरदयी हो ? तुमने पुत्रस्नेहको तिला-ञ्जलि देकर इस नन्हेंसे बालकको पृथ्वीपर फुशा विष्ठाकर सुला दिया है और उसे इस भीषण श्मशानमें छोड़कर जानेको तैयार हो गये हो । क्या इस बच्चेमें तुम्हारा कुछ भी स्नेह नहीं है ? देखो, पशु-पक्षियोंका अपने बच्चोंपर कसा स्नेह होता है ! यद्यपि उनका पाजन-पोषण करनेपर भी उन्हें इस लोक या परलोकमें उनसे कोई फल नहीं मिलता ।

परंतु मनुष्योंमें तो स्नेह ही कहाँ है, जो उन्हें शोक ही । यह तुम्हारा बंशधर बालक है, इसे छोड़कर अब तुम कहाँ जाना चाहते हो ? अरे ! अभी देरतक आँसू बहाओ और प्यारके साथ जी-भरकर इसे देखो । शरीरसे क्षीण होते हुए, मुकंदमें फँसे हुए और श्मशानकी ओर जाते हुए पुरुषका साथ उसके बन्धु-बान्धव ही दिया करते हैं, दूसरे लोग नहीं । हाय ! इस कमलनयन बालकको छोड़कर जानेके लिये तुम्हारे पैर कैसे उठते हैं ?' गीदड़की ये बातें सुनकर वे सब लोग उसी समय शवके पास लौट आये ।

अब वह गिद्ध कहने लगा, 'अरे बुद्धिहीन मनुष्यो ! इस अत्यन्त तुच्छ मन्दमति गीदड़की बातोंमें आकर तुम लौट कैसे आये ? थोथे फाठके समान इस पञ्चभूतोंके छोड़े हुए चेष्टाहीन शरीरके लिये तुम शोक क्यों करते हो ? अब तुम तीव्र तपस्यामें लग जाओ, उससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जायेंगे । देखो, तपस्याके प्रभावसे सब कुछ मिल सकता है, व्यर्थ विलाप करनेमें क्या रक्खा है ? धन, गौ, सोना, मणि, रत्न और पुत्र सबका मूल तप ही है, तपहीसे ये सब चीजें मिल सकती हैं । मनुष्य अपने पूर्वजन्मके कर्मोंके अनुसार ही सुख-दुःख को लेकर जन्मता है । पिताके कर्मोंसे पुत्र और पुत्रके कर्मोंसे पिता बंधा हुआ नहीं है । सब अपने-अपने पाप-पुण्योंसे बंधे हैं और अन्तमें इस मृत्युमार्गसे ही जाते हैं । अतः तुम प्रयत्नपूर्वक धर्मका आचरण करो, अधर्ममें मन मत ले जाओ तथा देवता और ब्राह्मणोंके साथ समया-नुसार वर्तव्य करो । शोक और दीनता छोड़ दो, पुत्रकी मोह-ममतासे दूर हो जाओ, इसे यहीं खुले मैदानमें छोड़कर चले जाओ । देखो, कोई कैसा ही प्यारा हो, यहाँ छोड़कर फिर किसीके बन्धु-बान्धव इस स्थानपर अधिक देर नहीं ठहरते । उन्हें अपने स्नेहबन्धन तोड़कर आँखोंमें आँसू भरने लौटना ही होता है । कोई बुद्धिमान् हो या मूर्ख, धनवान् हो या निर्धन, उसे अपने शुभाशुभ कर्मोंको लेकर कालके अधीन होना ही पड़ता है । अच्छा, शोक करके ही तुम क्या कर लोगे ? सबका शासक तो काल ही है, जो सबको एक नजरसे देखता है । यह कराल काल युवा, बालक, वृद्ध और गर्भस्थ जीवोंको भी लील जाता है; इस संसारकी ऐसी ही गति है ।'

इसपर गीदड़ने कहा—अरे ! तुम तो पुत्रस्नेहमें भरकर बहुत चिन्तातुर थे, किंतु इस मन्दमति गिद्धने तुम्हारे स्नेहको शिथिल कर दिया है । इसीसे उसकी सरल, युक्ति-

मृत और विश्वसनीय-सी जान पड़नेवाली बातोंमें आकर तुमलोग स्नेहको तिलाञ्जलि देकर घर लौटनेके लिये तैयार हो गये हो। आखिर यह तुम्हारे ही रवत और मांससे बना है, तुम्हारे आधे शरीरके समान है और अपने पितरोंके वंशकी वृद्धि करनेवाला है। इसे वनमें छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? अच्छा, इतना ही करो कि जबतक सूर्य अस्त न हो तबतक यहाँ ठहरो, उसके बाद तुम इसे या तो साथ ले आना या यहाँ बँटो रहना।

गिद्धने कहा—मनुष्यो! मुझे जन्म लिये आज एक हजार वर्षसे अधिक हो गये, किन्तु मैंने तो कभी किसी स्त्री-पुरुष या नपुंसकको मरनेके बाद फिर जीवित होते नहीं देखा। देखो, इसका मूल देह नित्तेज और काठके समान हो गया है। ऐसे प्राणहीन शरीरको छोड़कर तुम चले क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारा यह स्नेह और परिश्रम तो व्यर्थ ही है, इससे कोई फल हाथ लगनेवाला नहीं है। मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कह रहा हूँ, परंतु ये हेतुर्गमित हैं और मोक्षधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं, इसलिये मेरी बात मानकर तुम अपने-अपने घर चले जाओ। किसी मरे हुए सम्बन्धीको देखकर और उसके कामोंको याद करके तो मनुष्यका शोक दुगुना हो जाता है।

गिद्धकी ये बातें सुनकर सब लोग लौटने लगे, उसी समय गौडड़ तुरंत उनके पास आया और कहने लगा, 'भैया! देखो तो सही, इस बालकका रंग कौसा सोनेके समान देदीप्यमान है। यह एक दिन अपने पितरोंको पिण्डदान करेगा। तुम इस गीघकी बातोंमें आकर इसे छोड़ें क्यों जाते हो? इसे छोड़कर जानेंसे तुम्हारे स्नेह, वियोग-व्यथा और रोने-धोनेमें तो कमी आवेगी नहीं, हाँ, तुम्हारा संताप अवश्य बढ़ जायगा। एक बार राजपि श्वेतका भी बालक मर गया था, किन्तु धर्मनिष्ठ श्वेतने उसे फिर जीवित कर लिया था। इसी प्रकार यदि तुम्हें भी कोई सिद्ध, मुनि या देवता मिल जायें तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकते हैं।'

गौडड़के इस प्रकार कहनेपर वे सब लोग फिर शमशान-में लौट आये और उस बालकका सिर गोदमें रखकर फूट-फूटकर रोने लगे। उनके रदनका शब्द सुनकर गृध्रने उनके पास आकर कहा, 'अरे लोगो! तुम इस बालकको अपने आँतुओसे क्यों भिगो रहे हो तथा हाथोंसे दबा-दबाकर क्यों इसकी मिट्टी सराब कर रहे हो? यह तो धर्मरजकी आज्ञासे सदाके लिये सो गया है। जो बड़े भारी तपस्वी, धनी और बुद्धिमान् होते हैं, उन्हें भी मृत्युके हाथोंमें पड़ना ही होता है और अन्तमें उन्हें भी इस शमशानभूमिमें ही आश्रय मिलता है। अतः बार-बार लौटकर शोकका बोझा सिरपर

धारण करनेसे कोई लाभ नहीं है। अब इतके पुनर्जीवनकी कोई आशा नहीं है। जो द्यवित एक बार देहसे नाता तोड़कर मर जाता है, वह फिर उसी शरीरमें नहीं आ सकता। यदि संकटों गौडड़ भी इसके लिये अपना शरीर बलिदान कर दें तो भी अब यह बालक नहीं जो सकता। हाँ, यदि श्वरदेव, स्वामिकारिकायके, ब्रह्मा या विष्णु इसे बर दें तो यह जी सकता है। तुम्हारे आँसू बहाने, लंजे-लंजे श्वात लेंने या डींग फोड़कर रोनेसे इसे पुनर्जीवन नहीं मिल सकता। अतः बुद्धिमान् पुरुषको अप्रिय आचरण, कट्ट भ्रमण, दूसरोंके साथ द्रोह, अधर्म और असत्यका दूरसे ही त्याग कर देना चाहिये तथा धर्म, सत्य, शास्त्रज्ञान, न्याय, सर्वमृतदया, अकुटिलता और सृजनता आदि गुणोंका प्रयत्नपूर्वक सम्पादन करना चाहिये। अब मर जानेपर इस बालकके लिये रो-रोकर तुम क्या कर लोगे?'

गिद्धके ऐसा कहनेपर वे उस बालकको वहीं पृथ्वीपर पड़ा छोड़कर रोते-बिललते घर लौटने लगे। इसी समय गौडड़ फिर कहने लगा, 'अरे! तुम्हें घिबकार है। तुम इस गीघकी बातोंमें आकर बुद्धिहीनोंकी तरह पुत्रस्नेहको तिलाञ्जलि देकर कंसे जा रहे हो? यह भ्रम तो बड़ा पापी है। इसकी बात मानकर तुम इस रूपवान् और कुलकी शोभा बढ़ानेवाले बालकको छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं सच कहता हूँ, मुझे अपने मनसे तो यह बालक जीवित ही जान पड़ता है। इसका नाम नहीं हुआ है; इसे छोड़कर तुम मुझ नहीं पा सकोगे। देखो, तुम्हारी मुखकी घड़ी समीप ही है। निश्चय रखो, तुम्हें अवश्य मिलेगा।

गिद्ध बोला—यह वन्य प्रदेश प्रेतोंसे भरा हुआ है; इसमें अनेकों यक्ष-राक्षस रहते हैं। इसलिये यह बहुत ही भयानक है। तुम इस शवको यहाँ छोड़कर सुप्रसिद्ध होनेसे पहले ही इसका क्रिया-कर्म कर दो। इस भयानक स्थानमें जो जीव रहते हैं, वे सभी विकराल कलेवरवाले और मांसाहारी हैं। रातमें वे तुम्हें तंग करेंगे। यह वन्य भूमि बड़ी डरावनी है, यहाँ ठहरनेसे तुम्हें भय लगेगा। इस बालकका शरीर तो अब काठके समान निष्प्राण है। तुम इसे छोड़कर चले जाओ।

गौडड़ने कहा—ठहरो, ठहरो! जबतक सूर्यका प्रकाश है तबतक यहाँ किसी प्रकारका खटका नहीं है। उदय समयतक तो तुम स्नेहपूर्वक इस बालकको देखते हुए यहाँ रहो और ध्येच्छ विलाप करो। यदि तुम इस गिद्धकी कठोर और घबराहटमें डालनेवाली बातोंमें आ जाओगे तो इस बालकसे हाथ धो बैठोगे।

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! वे गृध्र और गीदड़ दोनों ही भूख थे। परंतु उनमेंसे गृध्र तो यही कहता रहा कि अब सूर्य अस्त हो गया है और गीदड़ने यही कहा कि अनी अस्त नहीं हुआ। वास्तवमें वे दोनों ही अपना-अपना काम बनानेपर तुले हुए थे। दोनों ही ज्ञानकी बातें बनानेमें कुशल थे, इसलिये उनकी बात मानकर वे कभी तो घर



जानेको तैयार होते और कभी फिर रुक जाते। अपना काम बनानेमें कुशल गृध्र और गीदड़ने उन्हें चक्करमें डाल दिया और वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रहे। इसी समय श्रीपार्वतीजीकी प्रेरणासे उनके सामने भगवान् शंकर प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वर माँगनेको कहा। तब सभी लोग अत्यन्त विनीत और दुःखित होकर बोले, 'भगवन् ! इस एकमात्र पुत्रके वियोगसे हम मृतक-से हो रहे हैं और पुनः जीवन-लाभ करनेके लिये आतुर हैं। अतः आप इस बालक-को जीवनदान देकर हमें मरनेसे बचाइये।' जब उन लोगोंने आँखोंमें आँसू भरकर भगवान्से ऐसी प्रार्थना की तो उन्होंने उसे जीवित कर दिया और सौ वर्षकी आयु दी तथा उन गृध्र और गीदड़को भी भूख मिट जानेका वर दे दिया। ऐसा वर पाकर उन्होंने भगवान्को प्रणाम किया और वे सभी बड़े हर्षित और कृतकृत्य होकर नगरकी ओर चले गये।

राजन् ! यदि कोई व्यक्ति वृद्ध निश्चयके साथ किसी कामके पीछे लगा रहे, उससे ऊबे नहीं तो भगवान्की कृपासे शीघ्र ही उसे सफलता मिल सकती है। देखो, भगवान् शंकरकी कृपासे उन दुखी मनुष्योंने सुख प्राप्त कर लिया और बालकको पुनर्जीवन मिलनेसे वे बड़े ही चकित और आनन्दित हुए तथा उसे लेकर बड़े चावसे नगरमें चले आये। जो पुरुष धर्म, अर्थ और मोक्षका मार्ग प्रदर्शित करनेवाले इस आस्थानको सुनता है, वह इस लोक और परलोकमें निरन्तर सुख पाता है।

प्रबल शत्रुसे बचनेका उपाय बतानेके लिये सेमलवृक्ष और वायुका प्रसंग

राजा युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! यदि कोई कमजोर मनुष्य भूलतासे अपने पास रहनेवाले किसी बलवान् मनुष्यसे चर वांध ले और वह क्रोधमें भरकर आवे तो उसे उससे किस प्रकार अपना बचाव करना चाहिये।

भीष्मजी बोले—भरतश्रेष्ठ ! इस विषयमें सेमलवृक्ष और वायुका संवादरूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। बहुत दिन हुए हिमालयके ऊपर एक बहुत बड़ा सेमलका वृक्ष था। हरे-भरे पत्तोंसे लदी हुई उसकी लंबी-लंबी शाखाएँ सब ओर फँली हुई थीं। उसके नीचे अनेकों मतवाले हाथी और मृग आदि विश्राम करते थे। उसकी छाया बड़ी ही घनी थी तथा उसका घेरा चार सौ हाथ था। अनेकों व्यापारी और वनमें रहनेवाले तपस्वीलोग मार्गमें जाते समय उसके नीचे

ठहरते थे। एक दिन श्रीनारदजी उधरसे होकर निकले। उन्होंने उसकी लंबी-लंबी शाखाएँ और चारों ओर झूमती हुई डालियाँ देखकर उसके पास जाकर कहा, 'शाल्मले ! तुम बड़े ही रमणीय और मनोहर हो। वृक्षप्रवर ! तुम्हारे कारण हमें नित्य ही बड़ा सुख मिलता है। तुम्हारी छत्र-छायामें अनेकों पक्षी, मृग और गज सर्वदा निवास करते हैं। मैं देखता हूँ तुम्हारी लंबी-लंबी शाखा और सघन डालियोंको वायु कभी नहीं तोड़ता। सो क्या पवनदेवका तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है अथवा वह तुम्हारा मित्र है, जिससे कि इस वनमें वह सदा ही तुम्हारी रक्षा करता रहता है। अजी ! यह वायु तो जब वेग भरता है तो छोटे-बड़े सभी प्रकारके वृक्षों और पर्वतशिखरोंको ही अपने अपने दिशा में धकेल देता है।

अवश्य, भीषण होनेपर भी, तुमसे बन्धुत्व या मंत्री माननेके कारण ही वायुदेव सर्वदा तुम्हारी रक्षा करता रहता है। मालूम होता है तुम वायुके सामने अत्यन्त विनम्र होकर कहते होगे कि 'मैं तो आपहीका हूँ' इसीसे वह तुम्हारी रक्षा करता है।

सेमलने कहा—ब्रह्मन् ! वायु न मेरा मित्र है, न बन्धु है और न मुद्द्व है। यह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा, किंतु मेरे अंदर जो भीषण बल और पराक्रम है, उसके आगे वायुकी शक्ति अठारहवें अंशके बराबर भी नहीं है। जिस समय वह वृक्ष, पर्वत तथा दूसरी वस्तुओंको तोड़ता-कोड़ता मेरे पास पहुँचता है उस समय मैं अपने पराक्रमसे उसकी गति रोक देता हूँ।

नारदजीने कहा—शाल्मसे ! इस विषयमें तुम्हारी वृष्टि निःसंदेह ठीक नहीं है। संसारमें वायुके समान तो कोई भी बलवान् नहीं है। उसको बराबरी तो इन्द्र, यम, कुबेर और यवण भी नहीं कर सकते, फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है ? संसारमें जीव जितनी भी चेष्टाएँ करते हैं, उन सबका हेतु प्राणप्रद श्वायु ही है। वास्तवमें तुम बड़े ही सारहीन और दुर्बल हो, केवल बहुत-सी बातें बनाना जानते हो। इसीसे ऐसा मूढ़ बोल रहे हो। घन्चन, स्पन्दन, साल, सारल, देवदास, बेंत और धन्वन आदि जो तुमसे अधिक बलवान् वृक्ष हैं वे भी वायुका ऐसा निरादर नहीं करते। वे अपने और वायुके बलको अच्छी तरह जानते हैं, इसीसे वे सदा उसे सिर झुकाते हैं। तुम जो वायुके अनन्त बलको नहीं जानते—यह तुम्हारा मोह ही है। अच्छा तो अब मैं भी वायुके पास जाकर तुम्हारी ये बातें सुनाता हूँ।

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! शाल्मलिकी इस प्रकार इष्टकर ब्रह्मवैत्ताओंमें श्रेष्ठ नारदने वायुदेवके पास जाकर उसकी सब बातें सुना रहीं। इससे उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह उस सेमलके पास जाकर कहने लगा, 'शाल्मसे ! जिस समय नारदजी तेरे पास होकर निकले थे, उस समय क्या तूने उनसे मेरी निन्दा की थी ? तू जानता नहीं, मैं साक्षात् वायुदेव हूँ। देख, मैं अभी तुम्हें अपनी शक्तिका परिचय कराये देता हूँ। ब्रह्माजीने प्रजाकी उत्पत्ति करते समय तेरी छायामें विश्राम किया था; इसीसे मैं अबतक तुम्हपर कृपा करता आ रहा था और तू मेरी म्पदसे बचा रहता था। परंतु अब तो तू एक साधारण जीवके समान मेरी भयना करने लगा। अच्छा, तो ले, मैं तुम्हें अपना रूप दिखाता हूँ, जिससे फिर कभी तुम्हें मेरा तिरस्कार करनेका साहस न हो।'

वायुके इस प्रकार कहनेपर सेमलने हँसकर कहा, 'पयनदेव ! यदि तुम मुझपर कुपित हो तो अवश्य अपना

रूप दिखाओ। देख, क्रोध करके तुम मेरा क्या कर लेते हो ! मैं तुमसे बलमें कहीं बड़-बड़कर हूँ, इसलिये तुमसे जरा भी नहीं डर सकता। अजी ! अधिक बलवान् तो ये ही होते हैं, जिनके पास बुद्धिबल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है, उन्हें वास्तविक बलवान् नहीं माना जाता।'

शाल्मलिके ऐसा कहनेपर पवन बोला, 'अच्छा, कत मैं तुम्हें अपना पराक्रम दिखाऊँगा।' इतनेहीमें रात आ गयी। शाल्मलिनने अपनेकी वायुके समान बली न देखकर सोचा, 'मैंने नारदजीसे जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं था। बलमें वायुके सामने मैं बहुत असमर्थ हूँ। इसमें संदेह नहीं, मैं तो दूसरे कई वृक्षोंसे भी दुर्बल हूँ। परंतु बुद्धिमें मेरे समान उनमेंसे कोई नहीं है। अतः मैं बुद्धिका आश्रय लेकर ही वायुके भयसे छूटूँगा। यदि दूसरे वृक्ष भी उसी प्रकारकी बुद्धिका आश्रय लेकर यनमें रहेंगे तो निःसंदेह उन्हें कुपित वायुसे किसी प्रकारकी क्षति नहीं हो सकेगी।'

भीष्मजी कहते हैं—सेमलने ऐसा विचारकर स्वयं ही अपनी शाखा, झालियाँ और फूल-पत्ते आदि गिरा दिये तथा प्रातःकाल अपनेबाते वायुके प्रतीक्षा करने लगा। समय होनेपर वायु प्रोचसे सनसनाता और अनेकों विशाल वृक्षोंको धरासायी करता हुआ वहाँ आया। जब उसने देखा कि वह अपनी शला और फूल-पत्ते आदि गिराकर टूट बना लगा है तो उसका सारा क्रोध उतर गया और उसने मूलकराकर पूछा, 'अरे सेमल ! मैं भी प्रोचमें भरकर तुम्हें ऐसा ही कर देना चाहता था। तेरे पुण्य, स्कन्ध और गाण्वादि नष्ट हो गये हैं तथा अङ्कुर और पत्ते भी मूड़ चुके हैं। अपनी कुमतिसे ही तू मेरे बल-पराक्रमका शिकार बना है।'

वायुकी ऐसी बात सुनकर सेमलको बड़ा सकोच हुआ और वह नारदजीको कही हुई बातें याद करके बहुत पछताने लगा। राजन् ! इस प्रकार जो धर्षित बुबल होनेपर भी अपने बलवान् शत्रुसे विरोध करता है, उस मूलको इस सेमलके समान ही सतप्त होना पड़ता है। इसलिये बलवान् शत्रुओंसे कभी बंर नहीं जानना चाहिये; क्योंकि आग बँडे तिनकोंमें बँडे जाती है उसी प्रकार बुद्धिमानकी बुद्धि उनमें नाराका कोई उपाय निकाल लेती है। वस्तुतः बुद्धि बँडे बलके समान मनुष्यके पास कोई दूसरी चीज नहीं है; इससे समर्थ पुरुषको बालक, मूल, अंधे, बहरे और अन्य बलवान्के व्यवहारको संवेदा सहते रहना चाहिये। बात में तुम्हारे अंदर खूब देखता हूँ। मैंने तुम्हें कुछ राजधर्म और आपद्धर्म और बना सुनाऊँ ?

लोभमें पाप, शिष्ट पुरुषोंके लक्षण, अज्ञानके दोष तथा दमकी प्रशंसा

युधिष्ठिरने पूछा—मरतयेष्ठ ! अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पापका अर्थक्या क्या है और किससे उसकी प्रवृत्ति होती है

भीष्मजी बोले—राजन् ! तुम, लोभ एक बड़ा भारी ग्रह है और लोभसे ही पापकी प्रवृत्ति होती है । लोभसे ही पाप, अधर्म और दुःखका जन्म होता है तथा जितने फँसकर मनुष्य पापी बनते हैं, उत कष्टका मूल भी लोभ ही है । लोभसे ही काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान और अनभ्रताकी उत्पत्ति होती है । लोभसे ही अक्षमा, निर्लज्जता, शोनाय, धनंशय, चिन्ता और अपकीर्तिका जन्म होता है तथा लोभसे ही कृपणता, अल्पन वृष्णा, विकर्षणमें प्रवृत्ति, कुल-भिमान, रूप और ऐश्वर्यका मद, समस्त प्राणियोंसे द्रोह, सबका तिरस्कार, सबके प्रति अविश्वास और सभीके प्रति निष्पृथक्ता आदि बोगोंका प्रादुर्भाव होता है । दूसरेके धनको चुरा लेना, दूसरोंकी बहू-बेटियोंका शील नष्ट करना, वाणी और मनकी चञ्चलता, निन्दामें रचि होना, काम तथा स्वादेन्द्रियकी प्रवृत्तता, निष्प्राभायणकी दुर्निवार प्रवृत्ति, दूसरोंसे घृणा करना और डोंग मारना, मत्सरता और न करने योग्य कामोंको कर बैठना—इन सब दुर्गुणोंका कारण भी लोभ ही है । मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब भी लोभमें शिथिलता नहीं आती । जिस प्रकार अनेकों नदियोंकी उत्तराशिकों अर्धमें लीन करके भी समुद्रकी पूर्ति नहीं होती, उसी तरह कितने ही धन और भोग्य पदार्थ मिल जायें लोभका पेट नहीं भरता । राजन् ! इसके वास्तविक स्वस्वको ही देवता, गन्धर्व, अमुर, नाग तथा संसारके अन्य प्राणियोंमें भी कोई नहीं जान सकता । अतः संयतचित्त पुरुषको किसी प्रकार मोह और लोभको ही कादूमें करना चाहिये । लोभी मनुष्यमें दम्भ, द्रोह, निन्दा, चुगली और मत्सर—ये सभी दोष रहते हैं । बहुभूत लोग बड़े-बड़े शास्त्रोंको कण्ठस्थ कर लेते हैं और सब प्रकारकी शङ्खुओंका भी सनाधान कर सकते हैं, किन्तु इस पापोंके बंगुलमें फँसकर वे सदा दुःख भोगते रहते हैं । उनमें द्वेष और क्रोधकी अधिकता रहती है, शिष्टाचारसे वे दूर पड़ जाते हैं, बोलचालमें बड़े मोठे किन्तु भीतरसे बड़े कठोर हो जाते हैं । उनकी स्थिति घात-हूँसने बके हुए कुएँके समान होती है । वे बड़े शूद्र और धनके नामवर संसारको धोखा देनेवाले हो जाते हैं । वे अनेकों मनमाने मार्ग खड़े कर देते हैं तथा

सत्पुरुषोंके त्यागित किये मार्ग और धर्मोंका नाश करनेपर तुल्य रहते हैं । इन लोभप्रस्त दुरात्मा पुरुषोंके कारण समाजके जित-जित अङ्गमें विकार आता है, वह भी ऐसे ही कुर्म करने लगता है ।

अब मैं तुमसे शिष्ट पुरुषोंका वर्णन कर रहा हूँ; उनसे ही तुम अपने मनके संदेह पूछना । उनका सङ्ग करनेसे मनुष्यको पुनर्जन्म अथवा परलोकका मय नहीं रहता । इन लोगोंकी मात्सल्यमें प्रवृत्ति नहीं होती, वे प्रिय और अप्रियको समान समझते हैं, इन्हें शिष्टाचार और इन्द्रियसंयम प्रिय होता है, सुख और दुःखमें इनकी समान दृष्टि होती है तथा सत्य ही इनका परम लक्ष्य होता है । ये देते हैं, लेते नहीं । स्वभावसे बड़े दयालु एवं पितर, देवता और अतिथियोंके सेवक होते हैं तथा दूसरोंका हित करनेके लिये सर्वदा उद्यत रहा करते हैं । ये सभीका उपकार करनेवाले, सब प्रकारके धर्मोंका पालन करनेवाले, दूसरोंके लिये सर्वस्व निष्ठावर कर देनेवाले और बड़े दीर होते हैं । इन्हें कोई भी पुरुष अपने निश्चयसे डिगा नहीं सकता तथा इनके आचरणमें पूर्ववर्ती सत्पुरुषोंके आचरणसे कोई भेद नहीं आता । ये किसीको आतङ्कित करनेवाले, चपलस्वभाव या क्रूर भी नहीं होते और सर्वदा सन्मार्गपर स्थित रहते हैं । सत्पुरुषोंको सदा ही इनका सङ्ग करना चाहिये । इनमें अहिंसावृत्तिकी प्रधानता होती है, काम-क्रोधका अभाव रहता है तथा मनता और अहंकार भी नहीं पाये जाते । ये सदाचरणशील और न्यायका पालन करनेवाले होते हैं । तुम इनकी सेवा करना और जो पूछना हो इन्हींसे पूछना । राजन् ! उनका धर्म धन या यश बढ़ानेके लिये नहीं होता । वे शरीरकी आवश्यक क्रियाओंके समान उसे भी अपना अनिर्वाह्य कर्तव्य समझते हैं । उनमें भय, क्रोध, चपलता और शोकका अभाव होता है । वे धर्मका टोंग नहीं रचते और न धर्मपालनमें उनका कोई छिपा हुआ स्वार्थ ही रहता है । वे लोभ और मोहसे रहित तथा सत्य और सरलताका पालन करनेवाले होते हैं । ऐसे पुरुषोंमें तुम सर्वदा प्रेम रखना । ये सर्वदा सत्त्वगुणमें स्थित और समदर्शी होते हैं । इनकी दृष्टिमें काम-हानि, सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन और मरणमें भी कोई भेद नहीं होता । वे दृढ़ पराक्रमी, उन्नतिशील और सत्त्वमय मार्गका अनुसरण करनेवाले होते हैं । तुम अपनी इन्द्रियोंको जीतकर बड़ी सावधानीसे उन धर्मप्रिय और दिव्यगुणसम्पन्न महानुभावोंको

सेवा करना। ये सब बड़े गुणवान् होते हैं। दूसरे सोम तो केवल बातें बगानेवाले ही होते हैं।

युधिष्ठिरने कहा—तात! आपने सब अनर्थोंके आधारभूत सोमका तो वर्णन किया, अब मैं अज्ञानका यथाथं स्वरूप सुनना चाहता हूँ।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! जो मनुष्य अज्ञानवश पाप करता है और उससे होनेवाली अपनी ही हानिको नहीं समझता तथा साधु पुरुषोंसे द्वेष करता है, उसकी संसारमें निन्दा होती है। अज्ञानसे ही जीव नरकमें पड़ता है, अज्ञानसे ही उसकी दुर्दशा होती है तथा अज्ञानसे ही वह बलेश उठता और आपत्तिमें फँसता है। राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, अत्यन्त अभिमान, काम, क्रोध, दय, तन्द्रा, आलस्य, इच्छा, संताप, दूसरोंकी उन्नति देखकर जलना और पाप करना—यह सब अज्ञानके अन्तर्गत बताया गया है। राजन्! अज्ञान और सोम—इन दोनोंको एक समझो; क्योंकि इनसे एक-सा परिणाम निकलता—एक-सी बुराई पैदा होती है। सोमसे ही अज्ञान प्रकट होता है और सोमके बढ़नेपर अज्ञान भी बढ़ता है। जबतक सोम रहता है, अज्ञान भी बना रहता है और सोमके क्षयसे अज्ञानका भी क्षय हो जाता है। अज्ञान और सोमके ही कारण जीवको नाश प्रकारकी योगियोंमें भटकना पड़ता है। अज्ञानसे सोम और सोमसे अज्ञान—इस प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्व्योन्याश्रित है। सोमसे ही समस्त दोष प्रकट होते हैं; इसलिये सोमका परित्याग कर देना चाहिये। जनक, धृवनाथ, व्यासजी, प्रसेनजित् तथा अन्य अनेकों राजाओंने सोम त्याग देनेसे ही दिव्यलोक प्राप्त किया था। युधिष्ठिर! तुम भी सोमका त्याग करो, इससे तुम्हें इहलोक और परलोकमें सुख मिलेगा।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! संसारमें श्रेयका प्रतिपादन करनेवाले अनेकों दर्शन (मत) हैं; परंतु आप जिसे श्रेय मानते हैं—जो इस लोक और परलोकमें भी कल्याण करनेवाला हो, उसे ही मुझे बताइये। धर्मका मार्ग क्या बोध है, इससे बहुत-सी शाखाएँ (पदार्थविधियाँ) निकली हुई हैं, इनमेंसे कौन-सा धर्म सर्वोत्तम—अवश्य पालन करनेयोग्य माना गया है? तथा बहुत-सी शाखाओंसे प्रकट इस महान् धर्मका वास्तविक मूल क्या है?—ये सब बातें आप पूर्णरूपसे बतलाइये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! जिस उपायसे तुम्हें श्रेय (कल्याण) प्राप्त होगा, वह बताता हूँ, सुनो। जैसे अमृत पीनेसे पूर्ण सुख हो जाती है, उसी प्रकार इस ज्ञानको

पाकर तुम तृप्त हो जाओगे। धर्मके बहुत-से विधान हैं, जिनका मूर्खोंोंने अपने-अपने ज्ञानके अनुसार वर्णन किया है। उन सबका आधार है दम—मन और इन्द्रियोंका संयम। धार्मिक सिद्धान्तको जाननेवाले बृद्ध पुरुष दमको मुक्तिका साधन बतलाते हैं। विरोधतः ब्राह्मणके लिये तो दम ही सनातन धर्म है। इससे ही उसके शुभ कर्मोंकी यथावत् सिद्धि होती है। दम ब्राह्मणके लिये दान, यज्ञ और स्वाम्याप-से भी बढ़कर है। दम तेजकी वृद्धि करता है, वह बड़ा पवित्र साधन है। दमसे पापरहित हुआ तेजस्वी पुरुष परमपदको प्राप्त कर लेता है। संसारमें दमके समान दूसरा कोई धर्म मेने नहीं सुना है। सभी धर्मवालोंके यहाँ उसकी प्रशंसा की गयी है। इन्द्रियसंयम तथा मनोनिग्रहसे मुक्त मनुष्य इस लोक और परलोकमें भी सुख पाता है। उसे महान् धर्मका फल प्राप्त होता है। उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। जिसकी इन्द्रियों और मन वशमें नहीं हैं, उसे बारंबार दुःख उठाना पड़ता है तथा वह अपने ही दोषोंसे बहुत-से दूसरे-दूसरे उत्तम भी पैदा कर लेता है। चारों ही आश्रमोंमें दमको अन्तम बताया गया है। जिन मनुष्योंके अन्तःकरणमें दम (संयम) का उदय हुआ है, उनके लक्षण बताता हूँ, सुनो—क्षमा, धीरता, अहिंसा, सपता, सत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोधका अभाव, संतोष, मोठे ध्वन बोलना, किसीको कष्ट न देना और दूसरोंके दोष न देखना—ये सब गुण जिनमें उपलब्ध हों, उन पुरुषोंमें संयमका उदय समझना चाहिये। ये गुणधर्मोंका आदर और सब प्राणियोंपर दया करते हैं।

संयमी पुरुष चतुर्ली, असत्यमायण, दूसरोंकी निन्दा-स्तुति, काम, क्रोध, सोम, दय, शंका हाँकना, रोष, ईर्ष्या और दूसरोंका अपमान—इन दुर्गुणोंका कभी सेवन नहीं करता। संयम रखनेवालेको कभी निन्दा नहीं होती, उसके मनमें कोई कामना नहीं होती। 'मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मुझमें उनका स्नेह है और उनमें मेरा'—इस प्रकारके दर्शनके सम्बन्धोंको वह मनमें नहीं रखता। जो दूसरोंके लिये और प्रशंसासे दूर रहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। सबके प्रति मित्रताका भाव रखनेवाला और दुष्टोंके लिये मन माना प्रकारकी आसक्तिपत्तोंसे मुक्त है, उसे परचात् महान् फलकी प्राप्ति होती है। इस प्रकारके प्रसन्नचित्त और आत्माके स्वच्छने के लिये पुरुष इस लोकमें सम्मान और परलोकमें प्रसन्नचित्त और आत्माके स्वच्छने के लिये करता है। इस जगत्में जो ईश्वर भक्त हैं, जिनका सत्पुरुषोंने आदर किया है, वे ही हैं, जिनका सत्पुरुषोंने आदर किया है, वे ही मार्ग हैं। वह स्वभावसे ही

सम्पत्ता नहीं। मानसस्वप्न विद्वेद्यिय पुरुष धरते निकलकर एकान्त वनका आश्रय लेता है और वहाँ देहत्यागके समयकी प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वन्द्व विचरता रहता है। ऐसा जानी बहुलस्वप्न हो जाता है। जिसको स्वप्न प्राप्तिमें मय नहीं है तथा जिसके दूसरे प्राणी भी मय नहीं पाते, वह देहामिनात्मके रहित सदात्म किशोरे भी नहीं बनता। वह सभी प्राप्तिमें समान भाव रखता और सबको निन्दकी भाँति बलम्बान देता हुआ विचरता है। जैसे आकाशमें पक्षियोंकी और जलमें जलचर जीवोंकी गति नहीं देख पड़ती, उसी प्रकार जानीकी गति भी जाननेमें नहीं आती। जो बर-वारको छोड़कर मोक्षके लिये उद्योग करता है, वह तैरौमय लोकोंको प्राप्त होता है।

ब्रह्मराशिसे उत्पन्न हुआ जो पितामह (ब्रह्माजी) का उत्तम धाम है, वह मन और इन्द्रियोंके संयमसे ही प्राप्त होता है। विद्वका किसी भी प्राप्तिसे विरोध नहीं है, जो

तप और सत्यकी महिमा, क्रोध-काम आदि दोषोंका वर्णन तथा नृशंस पुरुषके लक्षण

भौष्पजी बोले—विद्वान् पुरुष कहते हैं कि इस सम्पूर्ण जगत्का मूल कारण है तप। जिस मूढ़ने कर्मों तर नहीं किया, उसे करने कर्मोंसे संकलता नहीं मिलती। प्रजापतिने तपसे ही सप्तस्र संसारको सृष्टि की है तथा श्रुतिमें तपसे ही वेदोंका ज्ञान प्राप्त किया है। विद्वानने जितने मय और मूढ़ हैं उनको तथा जन्मको भी तपसे ही उत्पन्न किया है। तरमल्लिह नृशान्ता पुरुष तीनों लोकोंको प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रत्येक प्रायणको वह तपस्या ही है। संसारमें जो दुर्लभ वस्तु है, वह भी तपस्यासे प्राप्त हो जाती है। शरांगे, चौर, गन्धर्वपारा और गुरुभक्तोंसे समापन करनेवाला पानो मनुष्य भी अन्धों तरह तपस्या करके ही पानसे छुटकारा पा सकता है।

तपस्याके अनेकों स्वरूप हैं, पर उनमें निराहार रहनेसे बड़कर कोई तर नहीं है। वानसे बड़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है, चातकी सेवासे बड़ा कोई आश्रम नहीं है, तीनों वेदोंके विद्वानोंसे श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है और संसार दो महान् तर है। श्रुति, सितर, वेदता, मनुष्य तथा दूसरे जो चराचर जीव हैं, वे सब तपस्यामें ही लगे रहते हैं। तपस्यासे ही सबको निवृत्ति प्राप्त होती है। देवताओंकी भी तपस्यासे ही इतनी बड़ी महिमा मिली है।

युधिष्ठिरने पूछा—शरांगी! इत्युप, श्रुति, सितर और वेदता—ये सब तपसावधारण धर्मोंकी प्रशंसा करते हैं,

जानसक्य आत्मामें ही रमता रहता है, ऐसे जानीको इस लोकमें पुनः जन्म लेनेका भय ही नहीं रहता, फिर उसे परलोकका भय कैसे हो? संयममें एक ही दोष है, दूसरा नहीं, वह यह कि धनाशील होनेके कारण लोग उसे असमर्थ समझने लगते हैं। मगर इसमें गुण बहुत बड़ा है, क्या धारण करनेसे अनेकों उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है; क्योंकि धनासे मनुष्यमें सहनशक्ति आ जाती है। संयमी पुरुषको वनमें जानेकी आवश्यकता नहीं है और असंयमीको वनमें रहनेसे कोई लाभ नहीं है। संयमशील पुरुष जहाँ बास करता है, वही वन है, वही आश्रम है।

वैशम्पायनजी कहते हैं—भौष्पजीकी ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर आनन्दमग्न हो गये, मानो अमृत पीकर नृप हो गये हों। वे धनात्माओंमें श्रेष्ठ भौष्पजीसे फिर बारंबार प्रश्न करने लगे। तब भौष्पजीने प्रसन्न होकर उन सबका समाधान आरम्भ किया।

अतः अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है? उसका लक्षण क्या है? उसकी प्राप्ति कैसे होती है? तथा सत्यका पालन करनेसे कौन-सा लाभ होता है?

भौष्पजीने कहा—युधिष्ठिर! सत्पुरुष सदा ही सत्य-स्वप्न धर्मका पालन करते हैं। सत्य सनातन धर्म है। सत्यको ही आदर देना चाहिये; क्योंकि सत्य ही जीवकी परम गति है। सत्य ही धर्म, तप, योग और सनातन ब्रह्म है। सत्य ही परम यज्ञ है। सत्यपर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब मैं तुम्हें अन्धः सत्यके आचार, लक्षण तथा उसकी प्राप्तिका उपाय बतलाता हूँ; सुनो। सम्पूर्ण लोकोंमें सत्यके (अतिरिक्त उसके) तेरह भेद माने गये हैं—सत्य, सनता, दम, मत्सरताका अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा (सहनशीलता), दूसरोंके दोष न देखना, त्याग, ध्यान, आर्पता (श्रेष्ठ आचरण), धैर्य, अहिंसा और दया—ये सब सत्यके स्वरूप हैं।

मित्य, अविनाशी और अविकारी होना ही सत्यका लक्षण है। किसीसे भी विरोध नहीं करना यह योग कहा जाता है और इसीसे सत्यकी प्राप्ति होती है। राग-द्वेष तथा काम-क्रोधको निटाकर अपनेमें, अपने त्रिय मित्रमें तथा शत्रुमें भी समानभाव रखना सनता है। किसी दूसरेकी वस्तुकी इच्छा न करना, सदा गन्धोयता और धौरता रखना तथा निर्मय एवं (नरके) रागोंसे रहित रहना—यह सब दम (मन और इन्द्रियोंके संयम) का लक्षण है। इसकी प्राप्ति जानसे होती

है। दान और धर्मके समय अपने मनकी कायमें रखना— इसे विद्वान् लोग 'मत्सरताका अभाव' कहते हैं। सदा कृत्यका पालन करनेसे ही मनुष्य मत्सरताका त्याग कर सफता है। सहने और न सहने योग्य प्रिय तथा अप्रिय वस्तुन सुनकर भी जो अना कर देता है, वह सत्युष्य माना जाता है। सत्य बोलनेवालेमें ही क्षमाका गुण आता है। जो बुद्धिमान् मत्सी-भाति दूसरोंका कल्याण करता है और मनमें कमी खेद नहीं करता, जिसकी मन और वाणी सदा शान्त रहती है; यह सज्जवान् माना जाता है। यह सज्जा नामक गुण धर्मके आचरणसे प्राप्त होता है। धर्मके लिये कष्ट सहना तितिक्षा (सहनशीलता) कहलाती है। लोगोंके सामने आदर्श उपस्थित करनेके लिये, इसका अवश्य पालन करना चाहिये। तितिक्षाकी प्राप्ति धर्मसे होती है। आसक्ति और विषयोंका जो त्याग है, वही वास्तविक त्याग है। राग-द्वेषसे मुक्त हुए बिना त्यागकी सिद्धि नहीं होती। जो मनुष्य अपनेको प्रकट न करके आसक्तिरहित होकर प्रत्यपूर्वक जीवोंकी भलाईका काम करता रहता है, उसके उस श्रेष्ठ आचरणका नाम ही आर्यता है। सुख या दुःख प्राप्त होनेपर मनमें विकार न होगा धर्म कहलाता है। जो अपनी उन्नति चाहता हो, उस बुद्धिमान्को सदा धर्म धारण करना चाहिये। सदा क्षमा करे, सत्य बोलें तथा हर्ष, भय और क्रोधका परित्याग कर दे। ऐसे आचरणवाले विद्वान् पुण्यको धर्म प्राप्त होता है। मन, वाणी तथा क्रियासे किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना*, सबपर अनुग्रह रखना तथा दान देना—यह मनुष्योंका सनातन धर्म है। इस प्रकार पृथक्-पृथक् मतलाये हुए उपयुक्त सभी धर्म सत्यके ही स्वरूप हैं। इनके द्वारा मनुष्य सत्यका ही सेवन करते और सत्यको ही बढ़ाते हैं। राजन्! सत्यके गुणोंका पार पाना अतम्भव है; इसीलिये ब्राह्मण, पितर और देवता भी सत्यकी प्रशंसा करते हैं। सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठसे बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्य ही धर्मका आधार है, अतः सत्यका सोप नहीं करना चाहिये। सत्यसे दानका, दक्षिणाओंसहित यज्ञका, त्रिविध अग्निधर्मों हवनका और धर्मनिर्णय करनेवाले घेदोंके स्वाध्यायका भी फल मिल जाता है। यदि एक ओर एक हजार अश्वमेधयज्ञोंका और दूसरी ओर सत्यका फल तराजूपर रखकर तौला जाय तो एक हजार अश्वमेधयज्ञोंकी अपेक्षा सत्यका ही फल अधिक होगा।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! क्रोध, काम, शोक,

मोह, विधिस्ता (नये-नये काम आरम्भ करनेकी इच्छा), परामृता (कठोरतापूर्ण कर्म करना), शोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निन्दा, दोषदृष्टि, झूठता और भय—ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं? यह ठीक-ठीक बताइये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! तुम्हारे कहे हुए तेरह दोष प्राणियोंके अत्यन्त प्रबल शत्रु हैं। ये मनुष्योंको सब ओरसे घेरे रहते हैं। जो सावधान नहीं रहता, उसे ये शत्रु बड़ी पीड़ा पहुँचाते हैं। मनुष्योंके देखते ही ये भेड़ियोंकी तरह उत्सर्जित पड़ते हैं और बलपूर्वक उसका नाश कर देते हैं। इन्होंने सबको दुःख मिलता है और इन्हींकी प्रेरणासे पापकर्मोंमें प्रवृत्ति होती है। ये किससे उत्पन्न होते, किस तरह पड़ते और किस प्रकार नष्ट होते हैं? ये सब बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले क्रोधकी उत्पत्ति बताता हूँ, एकाग्रचित्त होकर मुनो। क्रोध लोभसे उत्पन्न होता है और दूसरेमें दोष देखनेसे बढ़ता है। क्षमासे उसका बढ़ाव रुक जाता है और धीरे-धीरे उसीसे दूर भी हो जाता है। कामकी उत्पत्ति संकल्पसे होती है, वह सेवन करनेसे बढ़ता है और आसक्तिरहित होकर सेवन छोड़ देनेसे तत्काल नष्ट हो जाता है। दूसरोंके दोष देखनेका नाम है असूया। यह क्रोध तथा लोभसे उत्पन्न होती है और सब प्राणियों पर दया, मनमें वैराग्य तथा आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेसे नष्ट हो जाती है। मोह उत्पन्न होता है अज्ञानसे। वह पापके अभ्याससे बढ़ता है और महात्मा पुरुषोंके सत्संग से शीघ्र नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य आत्मज्ञानके विरोधी शास्त्रीका अवलोकन करते हैं, तो उन्हें (स्वर्गादिकी कामनासे) नये-नये कर्म आरम्भ करनेकी इच्छा (विधिस्ता) होती है, किंतु तत्त्वज्ञान होनेपर उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिसपर प्रेम हो उसके वियोगसे शोक होता है, किंतु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है—इससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत उसकी शान्ति हो जाती है।

परामृता अर्थात् कठोर कर्म करनेसे प्रवृत्ति होती है क्रोध, लोभ और अभ्यासके कारण तथा उसकी निवृत्ति होती है, सब प्राणियोंपर दया करने और मनमें वैराग्य होनेसे। सत्यका त्याग और दुष्टोंका साथ करनेसे मात्सर्य दोषको उत्पत्ति होती है तथा सत्युष्योंकी सेवामें रहनेसे उसकी निवृत्ति हो जाती है। अपने उत्तम कुल, अधिक जानकारी और ऐश्वर्यका अभिमान होनेसे मनुष्यपर 'मद' सवार हो जाता है किंतु इनकी असत्यत समझमें आ जानेसे वह तुरंत नष्ट जाता है। मनमें कामना होने और दूसरोंकी हानि देखनेसे ईर्ष्या पैदा होती है तथा विवेकहीन युद्धोंके उसका नाश होता है। सजाजते छष्ट हुए द्वेषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनोंको सुनकर

* यह अहिमा है।

† यह दया है।

निन्दा करनेकी आदत होती है, किंतु अच्छे लोगोंके वर्तावोंपर दृष्टि डालनेसे वह निन्द जाती है। जो लोग अपनी चुराई करनेवाले बलवान् मनुष्यसे बदला लेनेमें अतनर्थ होते हैं, उनके हृदयमें बड़ी प्रथल अनूया (दोष देखनेकी प्रवृत्ति) पैदा होती है, किंतु क्याका भाव जाग्रत होनेसे उसकी निवृत्ति हो जाती है। हमेशा कृपण मनुष्योंको देखनेसे अपनेमें भी कृपणता आ जाती है, परंतु जब मनुष्य धर्ममें स्थित होकर उसके दोषको समझ लेता है तो वह अपने-आप शान्त हो जाती है। प्राणियोंका भोगोंके प्रति जो लोभ देखा जाता है, वह अज्ञानके ही कारण है। भोगोंकी क्षणभंगुरताको देखने और जाननेसे उसकी निवृत्ति हो जाती है। शान्ति धारण करनेसे उपर्युक्त सभी दोष जांत लिये जाते हैं। धृतराष्ट्रके पुत्रोंमें ये तेरहों दोष मौजूद थे; और तुम सत्यको प्रहण करना चाहते हो, इसलिये श्रेष्ठ पुत्रोंकी सेवा करके तुमने इन सब-पर विजय पा ली है।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! साधु पुत्रोंके दशान और सेवनसे मैं इस बातको जानता हूँ कि फोमलतापूर्ण बर्ताव कैसे किया जाता है ? मगर नृशंस (क्रूर) मनुष्यों और उनके कर्मोंका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। नृशंस पुरुष इस लोक और परलोकमें भी शोककी आगसे जलता रहता है, इसलिये आप मुझे नृशंस मनुष्य और उसके कर्मका परिचय दीजिये।

भीष्मजीने कहा—राजन् ! नृशंस मनुष्यके मनमें बड़ी घृणित इच्छाएँ रहती हैं, वह हिंसा प्रधान कर्मोंका आरंभ करना चाहता है। स्वयं तब दूसरोंकी निन्दा करता है और दूसरे उसकी निन्दा करते हैं। (यदि उसके इच्छानुसार फल नहीं हुआ तो) वह अपनेको बञ्चित समझता है। दिये

पाप और उनके प्रायश्चित्त

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! सम्पूर्ण वेद और उपनिषदोंका पारंगत विद्वान् ब्राह्मण यदि यज्ञ करनेवाला हो और उसका धन चौर चुरा ले गये हों अथवा वह निर्धन हो तो राजाका फर्ज है कि वह उसे आचार्यकी दक्षिणा देने, पितरोंका श्राद्ध करने तथा अध्ययन करनेके लिये धन दे। देवदेता ब्राह्मणको चाहिये कि वह राजाके निकट अपने महत्त्वका वर्णन न करे। ब्राह्मण इस जगत्का फला, शासक, रक्षक और देवता कहलाता है, अतः उसके प्रति अमङ्गल-सूचक एवं फट्ट वचन नहीं कहना चाहिये। सन्निय अपने पाहृवलसे, वंश और शूद्र धनके बलसे और ब्राह्मण मन्त्र तथा हवनको शक्तिसे आपत्तिके समय अपनी रक्षा करे।

हुए दान का बारंबार बलान करता है तथा बेईमानी, नीचता, छोखेबाजी और शक्ता करनेमें कभी नहीं चूकता। भोष्य, बस्तुका अकेले उपभोग करता है, उसे अपने आश्रितोंको नहीं देता। अभिमानी और विषयासक्त होता है, अर्थ ही जोग हाँका करता है। सबके प्रति संदेह रखता और बञ्चना किया करता है। अपने वर्गमें रहनेवालोंकी तारीफ करता और द्वेषवश आश्रमोंपर लाञ्छन लगाया करता है। उसमें वर्णसंकरताका दोष होता है। नृशंस कर्म करनेवाला मनुष्य सदा हिंसाके लिये घूमता फिरता है, गुण-अवगुणको समान समझता है, मूढ़ अधिक बोलता है तथा बहुत ही लालची और तंगदिल होता है। वह धर्मात्मा और गुणवान् मनुष्यको ही पापी समझता है और अपने स्वभावके अनुसार किसीपर भी विश्वास नहीं करता। जहाँ दूसरोंकी बदनामी होती हो, वहाँ उनके गुण दोषोंको भी प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरेके अपराध बराबर होनेपर भी वह आजीविकाके लिये दूसरेका ही सर्वनाश करता है। जो उसका उपकार करता है, उसको वह अपने जालमें फँसा हुआ समझता है और उपकारीको भी यदि कभी धन देता है तो उसके लिये बहुत दिनोत्तिक परचात्ताप करता रहता है। जो मनुष्य दूसरोंके देखते रहनेपर भी उत्तम भोजनकी सामग्री अकेले चट कर जाता है, उसको भी नृशंस ही कहना चाहिये। जो पहले ब्राह्मणको देकर पीछे अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वयं भोजन करता है, वह इस लोकमें सुखी होता है और मरनेके बाद स्वर्गमें जाता है। युधिष्ठिर ! तुम्हारे पूछनेके अनुसार यह नृशंस पुरुषका लक्षण बतलाया है, समन्वदार मनुष्यको चाहिये कि नृशंससे सदा बचकर रहे।

कन्या, युवती, मन्त्र न जाननेवाला, मूर्ख और संस्कारहीन पुरुष—ये अग्निमें हवन करनेके अधिकारी नहीं हैं। ये जिसके यज्ञमें हवन करते हैं, उसके साथ ही स्वयं भी नरकमें पहुँचते हैं। मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करे उसे श्रद्धापूर्वक और इन्द्रियोंको काबूमें रखकर करे। बिना पूर्ण दक्षिणा दिये यज्ञ न करे। बिना दक्षिणाका यज्ञ प्रजा और पशुका नाश करता है तथा स्वर्गकी प्राप्तिमें भी बाधा डालता है। यही नहीं, वह इन्द्रिय, यश, कीर्ति तथा आयुको भी क्षीण करता है।

जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्रीसे समागम करते हैं, जिन्होंने घरमें अग्निकी स्थापना नहीं की है तथा जो अर्वादि क रीतिले हवन करते हैं, वे सभी पापी हैं। जिस गाँवमें एक ही कुएँका

पानी सब पीते हैं, वहाँ बारह घण्टे रहनेसे तथा शूद्र जातिकी स्त्रीसे विवाह कर लेनेसे ब्राह्मण भी शूद्र ही हो जाता है। यदि ब्राह्मण एक रात्रि भी किसी नीच वर्णके मनुष्य को सेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आसनपर बैठे तो इससे जो पाप लगता है, उसको वह तीन वर्षोंतक प्रतका पालन करते हुए पुण्योपर विचरनेसे दूर कर सकता है। परिहासमें, स्त्रीके पास, विवाहके अवसरपर, मुद्दे हितके लिये अथवा अपने प्राण बचानेके उद्देश्यसे मूठ बोलनेमें दोष नहीं है। इन पाँच स्थलोंपर असत्य बोलना पाप नहीं माना गया है। नीच वर्णके पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे प्रडा-पूर्वक प्रहण करना चाहिये। सोना अपवित्र स्थानमें भी पड़ा हो तो उसे बिना किसी हिवकिचाहटके उठा लेना चाहिये तथा बियके स्थानसे भी अमृत मिले तो उसे पी लेना चाहिये।

गौ और ब्राह्मणोंका हित, वर्णसंकरताका निवारण तथा अपनी रक्षा करनेके लिये वंश भी हृषियार उठा सकता है। मदिरापान, ब्रह्महत्या तथा गुरुपत्नीगमन—इन महापापोंके लिये कोई प्रायश्चित्त ही नहीं बताया गया है। किसी भी उपायसे अपने प्राणोंका अन्त कर देनेपर ही इनसे छुटकारा मिलता है। यही शास्त्रोंका निष्णय है। दूसरेका सोना हड़प लेना, घोरी करना और ब्राह्मणका घन छीन लेना—यह महान् पाप है। शराब पीनेसे, अगम्या स्त्रीके साथ गमन करनेसे, पतितके सम्पर्कमें रहनेसे और ब्राह्मणपर होकर ब्राह्मणोंके साथ समागम करनेसे मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। पतितके साथ रहकर उसका यज्ञ कराने, उसे पढ़ाने अथवा उसके घरमें पुत्र या पुत्रीका ब्याह कर देनेसे मनुष्य एक वर्षमें पतित होता है।

उपपुत्रक पापोंको छोड़कर शेष जितने पाप हैं, उनका प्रायश्चित्त बताया गया है। उसके अनुसार प्रायश्चित्त करके फिर पापको आदत छोड़ देनी चाहिये। पूर्वोक्त (शराबी, ब्रह्महत्यापरा और गुरुस्त्रीगामी—इन) तीन पापियोंके मरनेपर उनकी दाहादि क्रिया किये बिना ही कुटुम्बियोंको उनके अन्न और धनपर अधिकार कर लेना चाहिये। इसमें कुछ अन्यथा विचार करनेको आवश्यकता नहीं है। अपने मन्त्री और गुरु हो क्यों न हों, यदि वे पतित हो गये हों तो धार्मिक राजाको अपने धर्मके अनुसार ही उनका परित्याग कर देना चाहिये और स्वयं अपनी शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये। जबतक वे प्रायश्चित्त करके शुद्ध न हों तबतक उनके साथ कोई बात या विचार करना उचित नहीं है।

पापी मनुष्य धर्माचरण और तप करके ही अपने पापको नष्ट कर सकता है। घोरको 'मह घोर है' ऐसा कह देने मात्रसे घोरके बराबर पापका भागी होना पड़ता है और जो

घोर नहीं है, उसको घोर कह देनेसे मनुष्यको घोरके बूना पाप लगता है। कुमारी कन्या जब अपनी इच्छासे चरित्रप्रवृत्त होती है, तो उसे ब्रह्महत्याका तीन हिस्सा पाप भोगना पड़ता है और उसके चरित्रको बिगाड़नेवाला पुरुष शेष पापका भागी होता है। ब्राह्मणको गाली देने या उसे पटककर मारनेसे बड़ा भारी पाप लगता है। सौ वर्षोंतक तो उसे प्रेतकी भाँति भटकना पड़ता है और एक हजार वर्षोंतक नरकमें रहना पड़ता है। इसलिये ब्राह्मणको न गाली दे, न मारे। ब्राह्मणके शरीरमें धाव हो जानेपर उससे निकला हुआ रक्त धूलके जितने कणोंको मिगोता है, छोट पढ़ेचानेवाला मनुष्य उतने ही वर्षोंतक नरकमें निवास करता है।

गर्भको हत्या करनेवाला यदि पुत्रमें शास्त्रिके आधातसे मर जाय अथवा जलती हुई आगमें कूड़कर अपनेको होम दे तो वह उस पापसे छूट जाता है। मदिरा पीनेवाला पुरुष यदि मदिराको सूच गरम करके पी ले और उससे मूँह जल जानेके कारण उसकी मृत्यु हो जाय तो वह उस पापसे मुक्त हो जाता है। गुरुपत्नीके साथ समागम करनेवाला पापी यदि स्त्रीके आकारको सोहेकी प्रतिमा बनवाकर उसे आगसे तपा ले और उसका आलिङ्गन करके प्राण दे दे तो उसकी शुद्धि हो जाती है। ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्मणकी सोंपड़ी लेकर अपना पाप-कर्म सोंगोंको सुनाता रहे और बारह वर्षोंतक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए सुभ्रह्म, राम तथा सोपहर तीनों समय स्नान और तपस्या करे। इससे उसकी शुद्धि हो जाती है।

दूसी तरह जो जान-बूझकर गर्भिणी स्त्रीकी हत्या करता है, उसको दो ब्रह्महत्याका पाप लगता है। मदिरा पीनेवाला मनुष्य मित्तहारी और ब्रह्मचारी होकर पुण्योपर शान्त करे, तीन वर्ष या इससे अधिक समयतक अग्निष्टोम यज्ञ करे, इसके बाद एक हजार बंस या इतनी ही गोएँ ब्राह्मणोंको दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है। वंशयकी हत्या कर डालनेपर दो वर्षोंतक पूर्वोक्त नियमसे रहे और ब्राह्मणको एक सौ बंस तथा एक सौ गोएँ दान करे। शूद्रको हत्या करनेवाला मनुष्य एक वर्षतक उन्नत नियमोंका पालन करके एक बंस और सौ गोएँ ब्राह्मणको दान करे। कुत्ता, भ्रूभर और गदहेको हत्या करनेवाला मनुष्य भी शूद्रकी हत्याके समान ही प्रायश्चित्त करे। विल्ली, नीलकण्ठ, मेढक, कौआ, साँप और चूहा मारनेपर भी पशु-हत्याके समान ही पाप लगता है।

अब दूसरे छोटे प्रायश्चित्त बतलाये जाते हैं—अनजानमें कोई-मकोड़े आदि छोटे जीवोंका घघ हो जानेपर उसके लिये परचाताप करे; अन्य उपपातकोंसे प्रत्येकके ... ५

व्यभिचार करनेपर तीन वर्षोंतक और अन्य परस्त्रियोंसे सम्पर्क होनेपर दो वर्षोंतक श्राद्धचर्य ब्रतका पालन करते हुए दिनके चौथे पहरमें एक बार भोजन करे। परायणी स्त्रीके साथ रहने, उठने-बैठने या भ्रमण करनेपर तीन दिनोंतक केवल पानी पीकर रह जाय। अग्निमें अपवित्र पदार्थ डालकर उसकी अवहेलना करनेवाले मनुष्यके लिये भी यही प्रायश्चित्त है।

जो अकारण ही पिता, माता और गुरुका परित्याग करता है, वह पतित हो जाता है—यही धर्मशास्त्रोंका निर्णय है। यदि पत्नीने व्यभिचार किया हो और विशेषतः इस काममें पकड़ी गयी हो तो उसे सिर्फ अन्न और वस्त्र दे तथा परायणी स्त्रीसे व्यभिचार करनेवाले पुरुषके लिये जो ब्रतमप प्रायश्चित्त बताया गया है, वही उससे भी कराये। जो अपने श्रेष्ठ पतिको छोड़कर दूसरे किसी पापीसे समागम करती है, उस कुलदाको चौड़े मंडानमें लड़ी करके राजा कुत्तोंसे नोचवा डाले। इसी तरह व्यभिचारी पुरुषको लोहेकी तपायी हुई पाटपर सुलाकर ऊपरसे लकड़ी रणकर आग लगा दे, जिससे वह पापी ज्वालीमें जलकर नष्ट हो जाय। पतिकी अवहेलना करके परपुरुषसे व्यभिचार करनेवाली स्त्रियोंके लिये भी यह दण्ड है। यदि पापी पाप करनेके बाद शालभरतका प्रायश्चित्त नहीं करता तो फिर उसे दूना प्रायश्चित्त करना चाहिये।

उसके संग्राममें यदि कोई दो वर्षोंतक रह जाय तो उस मनुष्यको तीन वर्षोंतक पृथ्वीपर विचरना और सुनिर्मांकी भाँति ब्रतका पालन करते हुए शिक्षारो निर्याह करना चाहिये। चार वर्षोंतक उसके सहवासमें रहनेवालेको पाँच वर्षोंतक उच्चत नियमके साथ पृथ्वीकी परिभ्रमा करनी चाहिये।

जो (बड़े भाईके अधिवाहित रहते) अधर्मपूयंक अपना व्याह कर लेता है, वह परिवेत्ता है, अधिवाहित भाईको परिविचि कहते हैं और वह स्त्री परिवेत्ता है—ये तीनों ही पतित माने जाते हैं। इन तीनोंको पृथक्-पृथक् अपनी शुद्धिके लिये एक मासतक चान्द्रायण या कृच्छ्रव्रत करना चाहिये। अथवा परिवेत्ता अपनी पत्नीको बड़े भाईके पास ले-जाकर पुत्रवधूके रूपमें उसे समर्पण करे और ज्येष्ठकी आज्ञासे पुनः उसे स्वीकार करे तो वे दोनों भाई और वह पत्नी भी धर्मतः पाप-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं।

मनुष्योंके लिये इस प्रकार उत्तम प्रायश्चित्तका विधान है। उनमें जो दान करनेमें समर्थ हैं, उनके लिये दानकी भी विधि है। श्रद्धालु पुरुषके लिये एक गोदानमात्र ही प्रायश्चित्त बताया गया है। इस प्रकार मैंने यह सनातन प्रायश्चित्तका वर्णन किया है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें विदुर तथा पाण्डवोंके पृथक्-पृथक् विचार

वैशम्पायनजी कहते हैं—यह कहकर जब भीष्मजी चुप हो गये तो राजा युधिष्ठिरने घर जाकर अपने चारों भाइयोंसाहित विदुरजीसे प्रश्न किया—‘धर्म, अर्थ और काम—इन तीनोंमें कौन उत्तम, कौन मध्यम और कौन लघु है? इन तीनोंको प्राप्त करनेके लिये विशेषतः किसमें मन लगाना चाहिये। यह बात आप सबलोग अपने-अपने विद्वत्ताके अनुसार बताइये।’ यह सुनकर सबसे पहले विदुरजीने धर्मशास्त्रका उल्लेख करके कहा आरम्भ किया।

विदुरजी बोले—वहूत-से शारदोंका अनुशीलन, तप, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, धामा, भाषणविद्वि, दया, सत्य और संवय—ये सब आत्माकी सम्पत्ति हैं। युधिष्ठिर! तुम इन्हेंको प्राप्त करो। धर्मसे ही ऋषियोंने संसारामुद्भूतको पार किया है, धर्मके ही आधारपर सम्पूर्ण लोक टिके हुए हैं, धर्मसे ही देवताओंकी उन्नति हुई है और धर्ममें ही अर्थकी भी रियति है। मनीषी विद्वान् धर्मको उत्तम, अर्थको मध्यम और काम को लघु बतलाते हैं। अतः मनुष्यको सबसे रणकर धर्मको ही अपना

प्रधान ध्येय बनाना चाहिये और सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ घेरा ही ब्रतवि करना चाहिये, जैसा हम अपने लिये चाहते हैं।

विदुरजीकी बात समाप्त होनेपर अर्जुनने कहा—‘राजन्! यह कामभूमि है। यहाँ जीविकाके साधनभूत कामोंकी ही प्रशंसा होती है। सेती, घ्यापार, गोपालन तथा भक्ति-भारतिके शिल्प—ये सब अर्थ-प्राप्तिके ही साधन हैं। अर्थ ही समस्त कामोंकी मर्यादा है। अर्थ (धन) के बिना धर्म और काम भी रिक्त नहीं होते। धनवान् मनुष्य धनके द्वारा उत्तम धर्मका पालन और कुलधन कामनाओंकी प्राप्ति भी कर सकता है। सब प्रयत्नके संग्रहसे रहित, संकोचशील, शान्त एवं गेहआ घरत रहने, वादी-भूँछ बढ़ाये विद्वान् पुरुष भी धनकी अभिलाषा करते पाये जाते हैं। कई ऐसे हैं, जो स्वयंके इच्छुक हैं और कुलपरम्परागत नियमोंका पालन करते हुए अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके धर्मोंका अनुष्ठान कर रहे हैं। फिर भी उन्हें धनकी चाह बनी हुई है। धनवान् यही है जो अपने भृत्योंको उत्तम भोग और शत्रुओंको दण्ड देकर उन्हें

वशमें रखता है। महाराज ! मेरा तो यही मत है। अब आप नकुल और सहदेवकी बातें सुनें। ये दोनों भी कुछ कहनेको उत्कण्ठित हैं।'

सदनन्तर, धर्म और अर्थके ज्ञाता माद्रीकुमार नकुल तथा सहदेव कहने लगे—'राजन् ! मनुष्यको बँठते, सोते, उठते और चलते-फिरते समय भी छोटे-बड़े हर तरहके उपचारोंसे दुर्दशापूर्वक धन कमानेका उद्योग करना चाहिये। धन बुलंद और अत्यन्त मिय वस्तु है, इसकी प्राप्ति हो जाने-पर मनुष्य संसारमें अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर सकता है। धर्मयुक्त अर्थ और अर्थयुक्त धर्म—ये अमूलके समान सामदायक हैं; इसलिये हम धर्म और अर्थ—दोनोंको आदर देते हैं। निर्धन मनुष्यकी कामना नहीं पूर्ण हो सकती और धर्महीन मनुष्यको धन भी कंसे मिल सकता है? अतः पहले धर्मका आचरण और फिर धर्मके अनुसार अर्थका संग्रह करे। इसके बाद कामनाओंका सेवन करना चाहिये। इस प्रकार त्रिवर्गका संग्रह करनेसे मनुष्य सफलमनोरथ होता है।'

यह कहकर नकुल और सहदेव चुप हो रहे। तब भीमसेनने इस तरह कहना प्रारम्भ किया—'धर्मराम ! जिसके भीतर कामना नहीं है, उसे न धन कमानेकी इच्छा होती है, न धर्म करनेकी। कामनाके बिना तो कोई काम (भोग) भी नहीं चाहता। इसलिये त्रिवर्गमें काम ही सबसे बढ़कर है। कोई-न-कोई कामना रखकर ही ऋषिलोग कठोर तपस्यामें संलग्न होते हैं; फल, भूल और पत्ते चबाकर, धातु पीकर सायधानीके साथ संयम करते हैं। कामनासे ही लोग वेदोंका स्वाध्याय करते, ध्याय-यज्ञादि क्रियाओंमें प्रवृत्त होते तथा दान देते और प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं। बनिये, किसान, ग्वाल, कारीगर और शिल्पकार तथा देवतासम्बन्धी काम

करनेवाले लोग भी कामनासे ही अपने-अपने धंधोंमें लगते हैं। सारा कार्य ही कामनासे व्याप्त है। अतः धर्म, अर्थ और काम—तीनोंका एक ही साथ सेवन करना चाहिये। जो इनमेंसे एकको ही स्वीकार करता है, वह अधम है, बोका आशय सेनेवाला मध्यम है और जो तीनोंके सेवनमें संलग्न है वह मनुष्य उत्तम है।'

यों कहकर भीमसेन जब चुप हो गये तो युधिष्ठिर बोले—'इसमें संदेह नहीं कि आपलोगोंने धर्मशास्त्रोंके सिद्धांतोंकी समझा है और प्रमाणोंका भी ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे पुष्टनेपर आपने जो-जो विचार प्रकट किये, वे सब मैंने सुन लिये। अब मेरी बात भी सुनिये—जो न पापमें लगा हो, न पुण्यमें; न अर्थोपाजनमें प्रवृत्त हो, न धर्म या कामके सेवनमें; जिसको दृष्टिमें मिट्टीका डेला और सोना एक समान हो, वह सब प्रकारके दोषोंसे रहित मनुष्य बुद्ध और सुख देनेवाली सिद्धियोंसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है। स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माजीका कहना है कि 'जिसके मनमें आसक्ति है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती।' किंतु जो धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिवर्गसे रहित है, वही बुलंद पुरुषार्थ (मोक्ष) को प्राप्त करता है; इसलिये गूढतत्त्वका ज्ञान ही संसारका हित करनेवाला है।'

वैशम्पायनजी कहते हैं—'राजा युधिष्ठिरकी कही हुई बात बड़ी ही उत्तम, युक्तियुक्त और मनमें बँठनेवाली थी, उसे सुनकर सब राजाओंकी बड़ी प्रसन्नता हुई, सबने हृद्यन्वित की ओर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे उनके कवनोंको प्रशंसा करने लगे। महामाना युधिष्ठिरने भी उन राजाओंकी प्रशंसा की और पुनः गङ्गानन्दन भीष्मजीके पास आकर उनसे धर्मके विषयमें प्रश्न किया।

मित्र बनाने और न बनानेयोग्य पुरुषोंके लक्षण तथा कृतघ्न गौतमकी कथा

युधिष्ठिरने पूछा—'पितामह ! सौम्य स्वभावके मनुष्य कंसे होते हैं? किन्के साथ प्रेम करना उत्तम होता है? भविष्य और वर्तमानमें भी कौनसे मनुष्य उपकार करनेमें समर्थ होते हैं? यह सब बतानेकी कृपा कीजिये।

भीष्मजीने कहा—'युधिष्ठिर ! किन्के साथ संधि करनी चाहिये और किन्के साथ नहीं? यह बात मैं सुनहें ठीक-ठीक बता रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो—जो लोभी, क्रूर, धर्मत्यागी, रूपटो, शठ, झूठ, पापी, सबपर संदेह करनेवाला आसत्ता, बोधभ्रूजो, कुटिल, निन्दित, गुप्तजीसे ध्यमिषाचर करनेवाला, संकटक समय साथ छोड़कर चल देनेवाला,

दुरात्मा, निर्व्रज, नास्तिक, वेदोंकी निन्दा करनेवाला, मूठ, सबके द्वेषका पात्र, चतुर्मुख, पापपूर्ण विचार रखनेवाला, धूर्त, मित्रोंकी बुराई करनेवाला, दूस्त्रोंका धन सेनेकी इच्छा रखनेवाला, बेमौके क्रोध करनेवाला, चञ्चलचित्त, अकस्मात् घेर बाँध सेनेवाला, अपना काम बनानेके लिये ही मित्रोंसे भेद रखनेवाला, वास्तवमें मित्रोंका द्वेषी, मूर्खसे मित्रताकी बातें करके भीतरसे शत्रुभाव रखनेवाला, टेढ़ी नजरसे देखनेवाला, शराकी, द्वेषी, क्रोधी, निर्वयो, बूझरोंको कष्ट देनेवाला, मित्र-श्रेणी, प्राणियोंकी हिंसा करनेवाला, कृतघ्न तथा मोक्ष ही, उसके साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिये।

अब संधि करनेके योग्य पुरुषोंको बता रहा हूँ, सुनो— जो कुलीन, बोलनेमें पटु, ज्ञान-विज्ञानमें कुशल, रूपवान्, गुणवान्, लोभहीन, काम करनेसे कभी न थकनेवाले, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, मधुर स्वभाववाले, सत्यप्रतिज्ञ तथा जितेन्द्रिय हों, उन्हीं लोगोंको राजा अपना मित्र बनावे। जो अपनी शक्तिके अनुसार कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करते और संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें बेमौके क्रोध नहीं आता, जो उदासीन हो जानेपर भी मनसे बुराई करना नहीं चाहते, अर्थके तत्त्वको समझते हैं और अपनेको कष्टमें डालकर भी हितैषी पुरुषोंका कार्य सिद्ध करते हैं। जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग नहीं छोड़ता उसी प्रकार जो मित्रोंकी ओरसे विरयत नहीं होते, जो सबके विषयासपात्र और धर्मानुरागी हैं, जिनकी दृष्टिमें मिट्टीका ढेला और सोना एक-से हैं तथा जो सदा अपने स्वामीका काम बनानेमें लगे रहते हैं—ऐसे उत्तम पुरुषोंके साथ जो राजा संधि (मेल) करता है, उसका राज्य उसी तरह बढ़ता है, जैसे चन्द्रमाकी चाँदनी। जो सदा शास्त्रका स्वाध्याय करते हैं, क्रोधको काबूमें रखते हैं और युद्धमें प्रवल रहते हैं, जिनका उत्तम कुलमें जन्म हुआ है, जो शीलवान् और उत्तम गुणोंसे युक्त हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र बनानेके योग्य होते हैं।

जिन्हें मैंने दोषयुक्त बताया है, उनमेंसे कई तो बहुत ही नीच, कृतघ्न और मित्रकी हत्या कर डालनेवाले होते हैं। ऐसे दुराचारियोंको सदा अपनेसे दूर ही रखना चाहिये—यही सबका मत है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! आपने जिसे मित्रब्रोही और कृतघ्न कहा है, उसकी पहचान क्या है? यह मुझे बताइये।

भीष्मजीने कहा—इस विषयमें मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ; यह घटना उत्तर दिशामें म्लेच्छोंके देशमें घटित हुई थी। मध्यदेशका एक ब्राह्मण था, जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था। एक दिन वह कोई सम्पन्न गाँव देखकर उसमें भोज माँगनेके लिये गया। उस गाँवमें एक दस्यु रहता था, जो बहुत ही धनी, ब्राह्मणभक्त, सत्यप्रतिज्ञ और दानी था। ब्राह्मणने उसीके घर पहुँचकर भिक्षाके लिये याचना की। दस्युने ब्राह्मणको रहनेके लिये एक घर देकर वर्षभर निर्वाह करनेके योग्य अन्नकी भिक्षाका प्रवन्ध कर दिया और नया कोरदार वस्त्र देकर उसकी सेवामें एक नवयुवती दासी भी दे दी, जो उस समय पतिते रहित थी।

दस्युसे ये सारी चीजें पाकर ब्राह्मण मन-ही-मन बहुत दुःख हुआ और दासीके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगा। उसका नाम था गौतम। वह भी दस्युओंकी ही तरह प्रतिदिन

वनमें विचरनेवाले हंसोंका शिकार करने लगा। हिसामें बड़ा प्रवीण निकला। दया तो उसे छू भी नहीं गयी थी। सदा प्राणियोंको मारनेकी ही ताकमें लगा रहता था। डाकुओंके संगममें रहकर वह पूरा डाकू बन गया।

इस प्रकार दस्युओंके गाँवमें सुखपूर्वक रहकर पक्षियोंका शिकार करते हुए उसके कई महीने बीत गते। तदनन्तर, उस गाँवमें एक दूसरा ब्राह्मण आया, जो स्वाध्याय-परायण, पवित्र, विनयी, नियमके अनुकूल भोजन करनेवाला, ब्राह्मण-भक्त, वेदका पारंगत विद्वान् तथा ब्रह्मचारी था। वह गौतमके ही गाँवका रहनेवाला और उसका प्रिय मित्र था। शूद्रका अन्न नहीं खाता था, इसलिये उस दस्युओंसे भरे हुए गाँवमें ब्राह्मणके घरकी तलाश करता हुआ वह सब ओर विचर रहा था। धूमते-धूमते गौतमके घरपर जा पहुँचा; इतनेहीमें गौतम भी वहाँ आया। दोनोंकी एक-दूसरेसे भेंट हुई। ब्राह्मणने देखा, गौतमके कंधेपर भरे हुए हंसकी लाश है और हाथमें धनुष-बाण हैं। उसका सारा शरीर खूनसे रँग गया है, देखनेमें वह राक्षस-सा जान पड़ता है और ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो चुका है। इस अवस्थामें पड़े हुए गौतमको पहचानकर आगन्तुक ब्राह्मणको बड़ा संकोच हुआ। उसने उसे धिक्कारते हुए कहा—‘अरे! तू मोहवश यह क्या कर रहा है? ब्राह्मण होकर डाकू कैसे बन गया? जरा, अपने पूर्वजोंको तो याद कर, उनकी कितनी ख्याति थी, वे कैसे वेदोंके पारगामी विद्वान् थे! और तू उन्हींके वंशमें पैदा होकर ऐसा कुलकलङ्क निकला। अब भी तो अपनेको पहचान। ब्राह्मणोचित सत्त्व, शील, शास्त्रज्ञान, संयम तथा दया आदि सद्गुणोंको याद करके अब यहाँ लुटेरोंमें रहना छोड़ दे।’

अपने हितैषी सुहृदके इस प्रकार कहनेपर गौतम मन-ही-मन कुछ निश्चय करके आर्त-सा होकर बोला—‘द्विजवर! मैं निर्धन हूँ और वेदका एक अक्षर भी नहीं जानता, इसलिये धन कमानेके लिये इधर आया था; आज आपके दर्शनसे मेरा जीवन सफल हो गया। अब रातभर यहाँ रहिये; कल सबेरे हम दोनों साथ ही चलेंगे।’ ब्राह्मण दयालु था, गौतमके अनुरोधसे उसके यहाँ ठहर गया, मगर वहाँकी किसी भी वस्तुको उसने हाथसे छुआतक नहीं। यद्यपि वह भूला था और भोजन करनेके लिये उससे प्रार्थना भी की गयी, परंतु किसी तरह वहाँका अन्न ग्रहण करना उसने स्वीकार नहीं किया।

सबेरा होनेपर जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उस स्थानसे चला गया तो गौतम भी घरसे निकलकर समुद्रकी ओर चल दिया। जाते-जाते वह एक दिव्य वनमें पहुँचा, जो बड़ा ही रमणीय था। वहाँके सभी वृक्ष फूलोंसे भरे हुए थे। अपनी शोभासे

यह नन्दनवनकी मात कर रहा था। उस वनमें यक्ष और किन्नर विचर रहे थे। चारों ओर पंक्षियोंका कलरव सुनायी पड़ता था। कहीं मनुष्योंके समान मूखवाले 'भाएण्ड' बोलते थे तो कहीं समुद्र और पर्वतोंपर होनेवाले भूलिङ्ग आदि पक्षी चहचहा रहे थे। इतनेहीमें उसकी दृष्टि एक अत्यन्त शोभायमान बरगदके विशाल वृक्ष पर पड़ी, जो चारों ओर मण्डलाकार फैला हुआ था, अपनी बहुत-सी सुन्दर शाखाओंके कारण वह एक महान् छत्रके समान जान पड़ता था। उसकी जड़ चन्दनमिश्रित जलसे सौंची गयी थी। उस मनोरम वृक्षको देखकर गौतम बहुत प्रसन्न हुआ और निकट जाकर उसकी छायामें बँठा। उस समय वहाँकी पवित्र वायुके स्पर्शसे उसे बड़ी शान्ति मिली और वह सुलका अनुभव करता हुआ वहाँ लेट गया। उधर सूर्य भी डूब गया।

उसी समय एक उत्तम पक्षी ब्रह्मलोकसे लौटकर अपने विद्यामस्थानपर आया, वह उस वृक्षपर ही बसेरा लिया करता था। उसका नाम था नाडीजङ्घ। वह धराराज ब्रह्माजीका प्रिय मित्र और कश्यपजीका सुपुत्र था। इस पृथ्वीपर राजधमके नामसे विख्यात था। देवकन्यासे उत्पन्न होनेके कारण उसके शरीरकी कान्ति देवताके समान थी, वह बड़ा विद्वान् था और दिव्य तेजसे देवीप्यमान दिखायी देता था। गौतमको उस समय मूल-न्यास सता रही थी, इसलिये उस पक्षीको आया देख उसने उसे मार डालनेके विचारसे ही उसकी ओर दृष्टिपात किया।

तब राजधमनि कहा—विप्रवर ! यह मेरा घर है, आप यहाँ पधारो, यह मेरे लिये बड़े सौभाग्यकी बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सूर्य अस्त हो गया है, संध्याके समय आप मेरे घरमें उत्तम अतिथिके रूपमें आये हैं; इसलिये मैं शास्त्रीय विधिके अनुसार आज आपको पूजा कहूँगा। रातमें मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल सबेरे यहलिये जाइयेगा। मैं महर्षि कश्यपका पुत्र हूँ। मेरी माता दक्ष प्रजापतिकी कन्या हैं। आप-जैसे गुणवान् अतिथिका मैं स्वागत करता हूँ।

यह कहकर राजधमनि गौतमका विधिबन्त सत्कार किया। शालके फूलोंका दिव्य आसन बनाकर उसे बँठनेको दिया। बड़ी-बड़ी मछलियाँ लाकर रख दीं और उन्हें पकानेके लिये आग प्रज्वलित कर दी। ब्राह्मण जब भोजन करके तुप्त हो गया तो वह तपस्वी पक्षी उसकी धकावट दूर करनेके लिये अपने पंखोंसे हवा करने लगा। विधामके परचात् अब वह बँठा तो राजधमनि उससे गौर पूछा; किंतु इसके उत्तरमें वह और कुछ न कहकर सिर्फ इतना ही बता सका कि 'मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम गौतम है।' तत्परचात् राजधमनि



उसके लिये पत्तोंका बिछोना तैयार किया, जो दिव्य पुष्पोंसे युक्त था। उसमेंसे गुणघ्न फैल रही थी। उसपर गौतमने बड़े आराधने शयन किया। जिस समय वह उस बिछोनेपर बँठा, राजधमनि उससे वहाँ आनेका कारण पूछा। गौतम बोला—'महाराज ! मैं दरिद्र हूँ और धनके लिये समुद्रतक जाना चाहता हूँ।' राजधमनि प्रसन्न होकर कहा, 'द्विजवर ! अब आप समुद्रतक जानेकी चिन्ता न कीजिये, यहाँ आपका काम हो जायगा, यहाँसे धन लेकर घर जाइयेगा। ब्रह्मस्पतिजीके मतके अनुसार चार प्रकारसे अयंकी प्राप्ति होती है—धन-परम्परासे, देवकी अनुकूलतासे, काम करनेसे और मित्रकी सहायतासे। अब मैं आपका मित्र हो गया हूँ, आपके प्रति मेरे हृदयमें पूर्ण सौहार्द है। अतः मैं ही ऐसा प्रयत्न कहूँगा, जिससे आपको अयंकी प्राप्ति हो जायगी।'

तदनन्तर, जब प्रातःकाल हुआ तो राजधमनि ब्राह्मणके सुलका उपाय सोचकर उससे कहा—'सौम्य ! आप इस मार्गसे जाइये, आपका कार्य सिद्ध हो जायगा। यहलिये तीन योजनकी दूरी पर मेरे एक मित्र रहते हैं, उनका नाम है विहपास। ये रातसोंके राजा और महान् बली हैं। मेरे कहनेसे आप उन्हींके पास चले जाइये। निःसंदेह वे आपकी मनोवाञ्छित कामनाएँ पूर्ण करेंगे।' उसके ऐसा कहनेपर गौतम विहपासके नगरकी ओर चल दिया। अब उसकी धकावट दूर हो चुकी थी। रास्तेमें इच्छानुसार अमृतके

मीठे फल खाता हुआ वह तेजीके साथ आगे बढ़ने लगा और मेरुज नामक नगरमें पहुँच गया। उस नगरके चारों ओर पर्वतोंका किला और पर्वतोंकी ही चहारदिवारी थी। उसका दरवाजा भी एक पर्वत ही था। नगरकी रक्षाके लिये सब ओर शिलाकी बड़ी-बड़ी चट्टानें और मशीनें थीं।

राक्षसराजको यह सूचना दी गयी कि आपके मित्रने अपने एक प्रिय अतिथिको आपके पास भेजा है। यह समाचार पाकर उसने सेवकोंसे कहा—'गौतमको नगरद्वारसे बुलाकर शीघ्र यहाँ ले आओ।' आना पाते ही उसके नौकर गौतमको पुकारते हुए बाजकी तरह ऋषट्कर दरवाजेपर आ पहुँचे और बोले—'भाई! जल्दी चलो, हमारे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं।' बुलावा सुनते ही गौतमकी थकावट दूर हो गयी, वह दौड़ पड़ा। राक्षसराजकी महासमृद्धि देखकर उसे बड़ा विस्मय हो रहा था। वह उन सेवकोंके साथ शीघ्र ही राजमहलमें जा पहुँचा।

वहाँ विरूपाक्षने उसका विधिबत् पूजन किया, तत्पश्चात् जब वह एक उत्तम आसनपर विराजमान हुआ तो राक्षसराजने उसके गोत्र, शाखा और ब्रह्मचर्यावल्यामें किये हुए स्वाध्यायके विषयमें प्रश्न किया। मगर वह गोत्र (जाति) के सिवा और कुछ न ब्रता सका। तब राक्षसने पूछा—'भद्र! तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारी स्त्री किस जातिकी है? यह सब ठीक-ठीक ब्रताओ, डरो मत।' गौतम बोला—'मेरा जन्म तो हुआ है मध्यदेशमें, मगर मैं भीलोकके घरमें रहता हूँ। मेरी स्त्री भी शूद्रजातिकी है और मुझसे पहले दूसरेकी पत्नी रह चुकी है। यह बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ।'

यह सुनकर राक्षसराज मन-ही-मन सोचने लगा—'अब किस तरह काम करना चाहिये? यह जन्मसे ब्राह्मण और महात्मा राजधर्माका सुहृद् है। उन्होंने ही इसे मेरे पास भेजा है। अतः उनका प्रिय कार्य अवश्य कहेगा। आज कार्तिककी पूर्णमा है, आजके दिन मेरे यहाँ हजारों ब्राह्मण भोजन करेंगे। उनके साथ इसे भी भोजन कराकर धन देना चाहिये।'

तदनन्तर, भोजनके समय हजारों विद्वान् ब्राह्मण स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण किये हुए वहाँ आ पहुँचे। राक्षसराजकी आज्ञासे सेवकोंने जमीनपर कुशाओंके सुन्दर आसन बिछा दिये। जब ब्राह्मण उनपर विराजमान हो गये, तो राजा विरूपाक्षने तिल, कुश और जल लेकर उनका विधिबत् पूजन किया। उनमें विश्वेदेवों, पितरों तथा अग्निदेवकी भावना करके उसने सबको चन्दन लगाया और फूलकी मालाएँ पहनायीं। उस समय उत्तम रीतिते पूजा सम्पन्न होनेपर उन ब्राह्मणोंकी बड़ी शोभा हुई। इसके बाद उसने

हीरोसे जड़ी हुई सोनेकी थालियोंमें धोसे बने हुए मोठे पकवान परोसकर उनके आगे रख दिये।

भोजनके पश्चात् ब्राह्मणोंके समक्ष रत्नोंकी ढेरी लगाकर विरूपाक्षने कहा—'द्विजवरो! आपलोग अपनी इच्छा और शक्तिके अनुसार इन रत्नोंको उठा लें और जिसमें आपने भोजन किया है, उस सुवर्णमय पावको भी अपने-अपने घर लेते जायें।' राक्षसराजके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणोंने इच्छानुसार उन रत्नोंको ले लिया। इस प्रकार उत्तम रत्न और वस्त्रद्वारा सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। तदनन्तर, विरूपाक्षने नाना देशोंसे आये हुए उन ब्राह्मणोंसे कहा—'विप्रवरो! आज दिनभर आपलोगोंको राक्षसोंसे कहीं कोई भय नहीं है, मौज करते हुए अपने-अपने अभीष्ट स्थानको चले जाइये। विलम्ब न कीजिये।'

यह सुनकर ब्राह्मणलोग चारों दिशाओंकी ओर भाग चले। गौतम भी सोनेका बोनू लेकर जल्दी-जल्दी चलता हुआ वरगदके वृक्षके पास आया। वह बड़ी कठिनाईसे उस भारको ढो रहा था। वहाँ पहुँचते ही थककर बैठ गया, झूझते वह और भी क्लान्त हो रहा था। राजधर्मापक्षीने अपने पंखोंसे हवा करके उसकी थकावट दूर की; फिर पूजन करके उसके लिये भोजनका प्रबन्ध किया। भोजन और विश्राम कर लेनेके बाद गौतमने सोचा—'मैंने लोभ तथा मोहके कारण सुवर्णका बड़ा भारी बोझ उठा लिया है। अभी दूर जाना है और रास्तेमें खानेके लिये मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसे प्राण धारण कहेगा? यही सोचते हुए उस कृतघ्नेने मनमें विचार किया, यह बकोंका राजा राजधर्मा मेरे पास ही तो है, क्यों न इसीको मारकर साथ ले लूँ और शीघ्रतत्पूर्वक यहाँसे चल दूँ।'

भीष्मजी कहते हैं—उस समय वह पक्षी गौतमपर विश्वास करके उसके पास ही सो रहा था। उधर, वह द्रुपदात्मा और कृतघ्न उसे मार डालनेकी तदबीर सोच रहा था उसके सामने झी आग जल रही थी, उसमेंसे एक जलती हुई सुआठी लेकर उसने निश्चिन्त सोते हुए राजधर्माको मार डाला। उसे मारकर गौतमको बड़ी प्रसन्नता हुई, उस हत्याके पापपर उसकी दृष्टि नहीं गयी। उसने भरे हुए पक्षीके पंख और बाल नोचकर उसे आगमें पकाया और साथमें ले लिया। फिर सोने की गठरी सिरपर लादकर बड़ी तेजीके साथ घरकी राह ली। दूसरे दिन विरूपाक्षने अपने पुत्रसे कहा—'बेटा! आज पक्षियोंमें श्रेष्ठ राजधर्माका दर्शन नहीं हुआ। वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्माजीकी प्रणाम करनेके लिये जाया करते थे और ब्रह्मते लौटनेपर मुझसे मिले बिना कभी घर नहीं जाते थे। इधर, दो शाम बीत गयीं किन्तु वे मेरे घर नहीं

पधारे; अतः आज मनमें तरह-तरहके संदेह उठ रहे हैं, न जाने मेरे मित्रको क्या हो गया है? तुम उनका पता लगाओ। कहीं ऐसा न हो कि वह अघम ब्राह्मण उन्हें भार डाले। वह बड़ा निर्दयी और दुराचारी जान पड़ता था, सूत-शबल तो उसकी ऐसी भयानक थी, मानो कोई डुपट्टे लुटेरा हो। नीच गौतम यहाँसे सौतकर' फिर उन्हींके पास गया था, इसीलिये मेरे मनमें उद्वेग हो रहा है। बेटा! तुम यहाँसे शीघ्र ही राजधर्मके स्थानपर जाओ और तुरंत इस बातका पता लगाओ कि वे जीवित हैं या नहीं?'

पिताकी ऐसी आज्ञा पाकर जब वह बहुत-से राक्षसोंके साथ उस घटवृक्षके पास गया तो वहाँ राजधर्माका कंकाल पड़ा दिखायी दिया। यह देखकर राक्षसराजका पुत्र रो पड़ा और गौतमको पकड़नेके लिये उसने पूरी शक्ति लगाकर पीछा किया। थोड़ी ही दूर जानेपर राक्षसोंने गौतमको पकड़ लिया, उसके साथ ही हृदियों और पंखोंसे रहित राजधर्माकी लाश भी मिल गयी। उसको लेकर वे तुरंत ही मेरुप्रजमें जा पहुँचे। वहाँ राक्षसोंने राजधर्माके भूत शरीर और उस पापी एवं कृतघ्न गौतमकी राजाके सामने पेश किया। मित्रकी यह दशा देख राजा विरुपाक्ष अपने मन्त्री और पुरोहितके साथ फूट-फूटकर रोने लगा। राजमहलमें बड़ा कुहराम मचा। स्त्री और बच्चों सहित सारे नगरमें मातम छा गया। तदनन्तर, राजाने कहा—'बेटा! इस पापीका वध कर डालो और समस्त राक्षस इसके मांसके टुकड़ोंको इच्छानुसार बाँटकर खा जायें; क्योंकि यह पापात्मा सदा पाप ही किया करता है।'

राक्षसराजके कहनेपर भी राक्षसोंको उस पापीका मांस खानेकी इच्छा नहीं हुई। उन्होंने सिर मुकाकर प्रणाम करते हुए कहा—'महाराज! आप हमलोगोंको इसका पाप भक्षण करनेके लिये न दोजिये।' राजाने कहा—'बहुत अच्छा, तुमलोग इस कृतघ्नकी दस्युओंके हवाले कर दो।' आशा पाते ही राक्षस हाथमें त्रिशूल और पट्टिश लेकर दूट पड़े और उस पापीके टुकड़े-टुकड़े करके दस्युओंको देने लगे। रिडु दस्युओंने भी उसका मांस खाना स्वीकार नहीं किया। मांसाहारो जीव भी कृतघ्नका मांस नहीं खाते। बसुंधरे शरामी, चोर और प्रतिज्ञा भंग करनेवाले मनुष्यके लिये पापसे छूटनेका प्रायश्चित्त बताया गया है; मगर इच्छाके उदारका कोई भी उपाय नहीं कहा गया है।

तदनन्तर, विरुपाक्षने बन्धुराजके लिये एक बिना तैयार काराधी और बहुत-से रत्नों, चन्दनों तथा बच्चोंके उसको गूद सजाया। फिर बन्धुराजके शत्रुको उसके ऊपर राक्षस

आग लगायी और विधिपूर्वक उसका दाह-कर्म सम्पन्न किया। उसी समय दक्षकन्या सुरभि देवी वहाँ आयीं और आसमानमें ऊपर खड़ी हो गयीं। उनके मुखसे द्रुधमिधित फेन निकलकर राजधर्माकी चितापर गिरा और उसके स्पर्शसे वह जीवित हो उठा। तब वह उड़कर विरुपाक्षके पास पहुँचा और दोनों मित्र गले मिले। इतनेहीमें देवराज इंद्र भी विरुपाक्षके नगरमें आ पहुँचे और उससे बोले—'बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम्हारे द्वारा राजधर्माकी जीवन मिला।' इसके बाद राजधर्मने इंद्रको प्रणाम करके कहा—'सुरेश्वर! गृहि आयकी मुझपर कृपा हो तो मेरे मित्र गौतमको जीवित कर दीजिये।' इंद्रने उसकी बात मान ली और अमृत लिफ्टकर उस ब्राह्मणको जीवित कर दिया। गौतमके जीवित होनेपर राजधर्मने बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे मित्रभावसे गले लगाया और उस पापीको धनसहित विदा करके बहू शरणे स्थान पर आ गया।

गौतम पुनः शीलोंके ही गाँवमें जाकर अपने उस शत्रु जातिकी स्त्रीके पेटसे अपने पुत्रको जन्म दिया। तब देवताओंने गौतमको कहा—'यह पापी कृतघ्न है और इसकी वान्नी स्त्रीके पेटसे बहुत सन्तानें पैदा होंगी। इस पापके कारण इतने

श्रीगणेशाय नमः
कथाको कथक
करके आर
और दुःख
विरा
है।
पुत्र
कि
अन्त
विशेष
निष्पन्न मित्रने
सर्वेक मन्त्र
प्रकार मित्रने दो
चरित मीने तुम्हें सुनाया है।
सिद्ध एक
नर कुशल

बंधुम्पायनजी कहते हैं—
कृतघ्न स्वप्न सुनकर घृषितिके।

शोकाकुल चित्तकी शान्तिके लिये राजा सेनजित् और ब्राह्मणके संवादका वर्णन

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! यहाँतक आपने राजधर्म-सम्बन्धी श्रेष्ठ धर्मोंका उपदेश दिया । अब आप सब आश्रमियोंके श्रेष्ठ धर्मोंका वर्णन कीजिये ।

भीष्मजी बोले—युधिष्ठिर ! वेदमें सर्वत्र धर्मका ही विधान है । धर्मके अनेकों द्वार हैं । संसारमें ऐसी कोई क्रिया नहीं है, जिसका कोई फल न हो । मनुष्य जैसे-जैसे संसारके पदार्थोंको सारहीन (क्षणभङ्गुर) समझता है, वैसे-वैसे इनमें उसका वैराग्य होता जाता है । अतः यह प्रपञ्च अनेकों दोषोंसे पूर्ण है—ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान् पुरुषको अपने मोक्षके लिये यत्न करना चाहिये ।

युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! धनके नष्ट हो जाने तथा स्त्री, पुत्र या पिताके मर जानेपर जिस विचारसे शोक दूर हो सकता है, वह क्या है ? वर्णन करनेकी कृपा करें ।

भीष्मजी बोले—बेटा ! जब धन नष्ट हो अथवा स्त्री, पुत्र या पिताकी मृत्यु हो जाय तो 'ओह ! संसार कैसा दुःख-मय है' यह सोचकर शोकको दूर करनेका प्रयत्न करे । इस विषयमें उदाहरणरूपसे यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है । पहले सेनजित नामका एक राजा था । वह पुत्र-वियोगसे अत्यन्त शोकातुर हो रहा था । उसे उदास देखकर एक ब्राह्मणने कहा, 'राजन् ! तुम मूढ मनुष्यकी तरह क्यों मोहित हो रहे हो ? शोकके योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरेके लिये क्यों शोक करते हो ? अजी ! एक दिन मैं, तुम और अन्य सब लोग भी वहाँ जायेंगे, जहाँसे आये हैं ।'

सेनजित्ने पूछा—तपोधन ! आपके पास ऐसी कौन बुद्धि, तप, समाधि, ज्ञान या शास्त्रबल है, जिसे पाकर आपको किसी प्रकारका विषाद नहीं होता ?

ब्राह्मणने कहा—देखो, इस संसारमें उत्तम, मध्यम और अधम—सभी प्राणी दुःखमें प्रस्त हैं तथा तरह-तरहके कर्मोंमें फंसे हुए हैं । मैं इस शरीर या पृथ्वीको अपनी नहीं मानता । ये जंतो मेरी हैं वंती ही दूसरोंकी भी हैं—यही सोचकर इनके कारण मुझे व्यथा नहीं होती और इस बुद्धिको पाकर ही मैं हर्ष-शोकसे रहित रहता हूँ । जिस प्रकार समुद्रमें दो लकड़ियाँ मिलती हैं और फिर अलग-अलग भी हो जाती हैं, इसी प्रकार इस लोकमें प्राणियोंका समागम होता है तथा इसी तरह यह पुत्र, पौत्र, जाति, बन्धु और सम्बन्धियोंकी कल्पना हो जाती है । अतः उनमें विशेष स्नेह नहीं करना चाहिये; क्योंकि एक दिन उनसे बिछोह होना निश्चित है । तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थानसे आया था और अब अज्ञात

देशको ही चला गया है । न तो वह तुम्हें जानता था और न तुम्हें उसे जानते थे । अतः तुम उसके कौन हो, जो उसके लिये शोक कर रहे हो । संसारमें विषयतृष्णासे जो व्याकुलता होती है, उसीका नाम दुःख है और उस दुःखका नाश हो जाना ही सुख है । उस सुखसे बार-बार दुःख उत्पन्न होता रहता है । इस प्रकार सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख—यह सुख-दुःखका चक्र घूमता ही रहता है । इस समय तुम्हें सुखकी स्थितिसे दुःखमें आना पड़ा है, इसलिये अब तुम सुख प्राप्त करोगे । किसी प्राणीको सर्वदा सुख या सर्वदा दुःखकी ही प्राप्ति नहीं होती । मनुष्य स्नेहकी अनेक प्रकारकी फाँसियोंमें बँधे हुए हैं और जलमें बालूका पुल बनानेवालोंके समान अपने कार्योंमें असफल होनेसे दुःख पाते रहते हैं । तेली लोग तेलके लिये जैसे तिलोंको कोलूमें पेरते हैं, उसी प्रकार सब लोग अज्ञानजनित कष्टोंसे पिस रहे हैं । मनुष्य स्त्री-पुत्र आदि कुटुम्बके लिये संसारमें तरह-तरहके पाप बटोरता है, किंतु इस लोकमें और परलोकमें उसे अकेले ही उनका बलेशमय फल भोगना पड़ता है । जिस प्रकार बूढ़ा हाथी दलदलमें फँसकर प्राण खो बैठता है, उसी प्रकार सब लोग पुत्र, स्त्री और कुटुम्बकी आसक्तिमें फँसकर शोक-समुद्रमें डूबे रहते हैं । जब पुत्र, धन या बन्धु-बान्धवोंमेंसे किसीका नाश हो जाता है तो वे दावानलके समान भीषण दुःखमें पड़ जाते हैं, परंतु सुख-दुःख और जन्म-मृत्यु आदि सब कुछ देवके अधीन है । मनुष्य हितंषियोंसे युक्त हो या न हो, वह शत्रुओंसे घिरा हो या मित्रोंसे तथा बुद्धिमान् हो अथवा बुद्धिहीन—दैवकी अनुकूलता होनेपर ही सुख पा सकता है । अन्यथा न तो हितंषी सुख देनेमें समर्थ हैं और न शत्रु दुःख देनेमें । न बुद्धि धन दे सकती है और न धन सुख पहुँचा सकता है । वास्तवमें संसारकी गतिको कोई बुद्धिमान् ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं ।

जिन्हें बुद्धियोगका सुख प्राप्त है, जो इन्द्रोंसे अतीत हैं और जिनमें मत्सरताका भी अभाव है, उन्हें अर्थ या अनर्थ कभी व्यथा नहीं पहुँचाते । किंतु जिन्हें बुद्धियोग प्राप्त नहीं हुआ है, वे ऐसी परिस्थिति आनेपर अत्यन्त हर्ष और अत्यन्त शोकके अधीन हो जाते हैं । अतः बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि सुख या दुःख, प्रिय अथवा अप्रिय जो-जो प्राप्त होता जाय, उसका उत्साहके साथ सामना करे, कभी हिम्मत न हारे । शोकके हजारों स्थान हैं और भयके संकड़ों अवसर हैं, किंतु वे दिन-दिन मूर्खोंपर ही प्रभाव डालते हैं, बुद्धिमानोंपर

नहीं। जो बुद्धिमान्, विचारशील, शास्त्राभ्यासी, ईर्ष्याहीन, संयमी और जितेन्द्रिय होता है, उस मनुष्यको शोक छू भी नहीं सकता। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि इस निरन्धयपर डटा रहकर संयत चित्तसे व्यवहार करे। जो पुरुष उत्पत्ति-विनाशके तत्त्वको जानता है, उसे शोक स्पर्श नहीं कर सकता। मनुष्य जब किसी पदार्थमें ममत्व कर बैठता है तो वही उसके दुःखका कारण बन जाता है। वह विषयोंमेंसे जिस-जिसको अत्यधिकते त्यागता जाता है, उसी-उसीसे मुक्त हो बुद्धि होती जाती है। किन्तु जो पुरुष विषयोंके पीछे पड़ा रहता है, वह तो उन्हींके साथ नष्ट हो जाता है। लोकोमें जितना भी विषय-सुख है और जो कुछ दिव्य स्वर्गीय आनन्द है, वे सब तूष्णा-क्षयके सुखकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते। मनुष्य बुद्धिमान् हो, मूल्य हो अथवा शूरवीर हो—अपने पूर्व-जन्ममें उसने जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म किया होता है उसका उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीवोंको बारी-बारीसे प्रिय-अप्रिय और सुख-दुःखकी प्राप्ति होती ही रहती है। ऐसे विचारका आधय लेकर कामनाओंके त्यागरूपी गुणसे युक्त हुआ मनुष्य सुखसे रहता है। अतः सब प्रकारके भोगोंमें दोष-दृष्टि करे और उन्हें स्वेच्छासे त्याग दे। हृदयसे उत्पन्न होनेवाला यह काम हृदयमें ही पुष्ट होकर मृत्युहृदयमें परिणत हो जाता है। (जब इसकी सिद्धिमें कोई बाधा आती है तो) विद्वानों द्वारा यही प्राणियोंके शरीरके भीतर शोषके नामसे पुकारा जाता है। कष्टभा जैसे अपने अङ्गोंको समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह जीव अपनी सब कामनाओंका संकोच कर देता है तो इसे अपने विशुद्ध अन्तःकरणमें ही स्वयंप्रकाश आत्माका साक्षात्कार हो जाता है। जब यह किसीसे भय नहीं मानता और इससे भी कोई नहीं डरता तथा जब यह किसी दस्तुकी इच्छा या किसीसे द्वेष नहीं करता तो इसे ब्रह्मत्वकी प्राप्ति हो जाती है। जब यह सत्य और असत्य, शोक और आनन्द, भय और अभय तथा प्रिय और अप्रिय दोनोंको त्याग देता

है, तो परम शान्तिचित्त हो जाता है। जब पुरुष-मन-बन्धन और कर्मसे किसी प्राणीके प्रति दूषित भाव नहीं करता, उस समय वह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। बुद्धिचित्त पुरुषोंके लिये जो अत्यन्त दुस्तयज्ञ है, मनुष्यके जीर्ण हो जानेपर भी जिसमें शिथिलता नहीं आती तथा जो प्राणियोंके साथ जानेवाला रोग है, उस तूष्णाको जो त्याग देता है, वह मुक्ती हो जाता है। राजन्! इस विषयमें पिङ्गलाकी गायी हुई एक गाथा प्रसिद्ध है जिससे ज्ञात होता है कि उसने क्लेशपूर्ण स्थितिमें पड़कर भी तूष्णाको त्याग देनेसे शूद्र सनतन धर्मको पा लिया था।

एक बार पिङ्गला बेपया बहुत बेरतक संकेत-भ्यानपर बंठी रही, तब भी उसके पास उसका प्रेमी नहीं आया। इससे उसे बड़ा खेद हुआ और उसने शान्त होकर ऐसा विचार किया—'मेरे सच्चे प्रियतम सदा ही स्वस्थ रहनेवाले हैं। मैं बहुत समयतक उनके साथ रह चुकी हूँ, फिर भी ऐसी उन्मत्त हो गयी कि इतने दिनोंतक पास रहनेपर भी उन्हें पहचान न सकी। भला, जिसे उस सच्चे प्रियतमका पता लग जायगा वह किसी दूसरेको कैसे पतिरूपसे स्वीकार करेगी। अब मैं भी मोहनिद्रासे जाग गयी हूँ। आजसे मैंने सब कामनाओंको तित्ताञ्जलि दी। अब भोगोंका रूप धारण करके ये नरकरूपी घूर्त्त मनुष्य मुझे छोला नहीं दे सकेंगे। देववशा पूर्व पुण्यका उदय होनेपर अनर्थ भी अर्थरूप हो जाता है। इसीसे आज निराशाने मुझे जितेन्द्रिय बना दिया है। वास्तवमें जिसे किसी प्रकारकी आशा नहीं है, वही सुखकी नींद सो सकता है, आशा न रखनेमें ही सबसे बड़ा आनन्द है। देखो, आशाको निराशाने परिणत करके ही आज पिङ्गला आनन्दसे सो रही है।'

श्रीधर्मजी कहते हैं—'राजन्! ब्राह्मणने जब ये तथा और भी ऐसी ही युक्तियुक्त बातें कहीं तो राजा सेनजित्क शोक दूर होकर चित्त ठिकानेपर आ गया और वह प्रसन्न होकर आनन्दसे जीवन बिताने लगा।

कल्याणकामीके कर्तव्यके विषयमें पिता-पुत्रका संवाद

राजा युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी! समस्त भूतोंका संहार करनेवाला यह काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसी अवस्थामें क्या करनेसे मनुष्यका कल्याण हो सकता है ?

श्रीधर्मजी बोले—युधिष्ठिर! इस विषयमें यह पिता और पुत्रका संवादरूप पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है, सुनो।

किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मणका 'मिथ्याजी' नामसे प्रसिद्ध एक बुद्धिमान् पुत्र था। वह मोक्ष, धर्म और अर्थमें कुशाह तथा लोकस्थितिको जाननेवाला था। एक दिन उसने अपने स्वाध्यायपरायण पितासे कहा, 'पिताजी! मनुष्यकी प्राण बड़ी तेजीसे बीती जा रही है—ऐसा जानकर बुद्धिमान् मनुष्यको क्या करना चाहिये? आप मुझे स्वर्ग देकर'

उपदेश कीजिये, जिससे मैं क्रमशः उसका आचरण कर सकूँ।'

पिताने कहा—बेटा ! मनुष्यको चाहिये कि पहले ब्रह्मचर्यव्रत लेकर वेदाध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके पितरोंकी सद्गतिके लिये पुत्र उत्पन्न करे और अग्न्याधानपूर्वक यज्ञादि करे, इसके बाद वातप्रस्थ आश्रममें रहे और फिर संन्यासी हो जाय।

पुत्र बोला—पिताजी ! यह लोक तो अत्यन्त ताडित और सब ओरसे घिरा हुआ जान पड़ता है, इसमें अमोघ वस्तुओंका पतन हो रहा है; फिर भी आप निश्चिन्तसे होकर कैसे बातें कर रहे हैं ?

पिताने कहा—बेटा ! तुम मुझे डराते क्यों हो ? भला, यह लोक किससे ताडित है, कौन इसे सब ओरसे घेरे हुए हैं और इसमें कौन-सी अमोघ वस्तुओंका पतन हो रहा है ?

पुत्र बोला—देखिये, मृत्यु इसे अत्यन्त ताडित कर रही है, जरावस्थाने इसे सब ओरसे घेर रक्खा है और दिन-रात इसमें नित्य पतित होते (आते-जाते) रहते हैं ? यह बात आपके ध्यानमें कैसे नहीं आती ? अमोघ रात्रियाँ नित्य ही आती हैं और चली जाती हैं। यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मौत मेरे कहनेसे क्षणभर भी नहीं रुकेगी। यह सब जानकर भी मैं अपने कल्याणसाधनमें किस प्रकार ढील डाल सकता हूँ ? जबकि प्रत्येक रात्रिके बीतनेके साथ आयु क्षीण हो रही है तो समझदार मनुष्यको यही समझना चाहिये कि उसका दिन च्यर्य ही गया; ऐसी स्थितिमें छिछले जलमें रहनेवाली मछलीके समान कौन सुख मान सकता है ? मनुष्यको कामनाएँ पूर्ण होने भी नहीं पातीं कि मृत्यु उसे दबोच लेती है; इसलिये जो काम कल्याणकारक हो उसे आज ही कर डालो, समयको हाथसे मत निकलने दो; क्योंकि मृत्यु तो काम पूरे न होनेपर भी प्राणियोंको खींच ही ले जायगी। जो काम कल करना हो उसे आज करो और जो दोपहर बाद करना हो उसे पहले ही पूरा कर लो; क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ है या नहीं। यह कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु हो जायगी। अतः युवावस्थामें ही मनुष्यको धर्मका आचरण करना चाहिये; क्योंकि जीवनका कोई ठिकाना नहीं है। धर्माचरण करनेसे मनुष्यका यश होता है और उसे इहलोक तथा परलोकमें सुख मिलता है। जो मनुष्य मोहमें डूबा रहता है, वही पुत्र और स्त्रीके लिये छटपटमें लगा रहता है और कार्य-अकार्य कुछ भी करके उनका पोषण करता है। उसके पास पुत्र और

पशुओंकी अधिकता होती है और उन्हींमें उसका चित्त आसक्त रहता है। वह निरन्तर भोगोंके ही संप्रहमें लगा रहता है, फिर भी उनसे उसकी तृप्ति नहीं होती। किंतु ऐसी स्थितिमें ही मौत उसे इस प्रकार उठा ले जाती है जैसे व्याघ्री अपने सोते हुए शिकारको। वह सोचता है कि यह काम तो पूरा हो गया, यह अभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है किंतु इस धुनमें मस्त हुए उस पुरुषको मौत ऋट अपने वशमें कर लेती है। मनुष्य अपने खेत, दूकान और घरके ही चक्करमें पड़ा रहता है; उनके लिये तरह-तरहके कर्म करता है। परंतु उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उसे उठाकर ले जाती है। मनुष्य दुर्बल हो या बलवान्, शूरवीर हो या डरपोक, अथवा मूर्ख हो या विद्वान्, मौत उसकी समस्त कामनाओंके पूर्ण होनेसे पहले ही उसे उठा ले जाती है। पिताजी ! जब इस शरीरमें मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेकों कारणोंसे होनेवाले दुःखोंका ताँता लगा ही रहता है तो आप इस प्रकार निश्चिन्तसे हुए क्यों बैठे हैं ? मौत और बुढ़ापा—ये दोनों तो जीवके जन्मके साथ लगे हुए हैं। इन दोनोंका सभी स्थावर-जङ्गमोंसे सम्बन्ध है। अतः ग्राम या नगरमें रहकर स्त्री-पुत्रोंमें आसक्ति रखना तो जीवको बाँधनेवाली रस्सीके ही समान है। केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट सकते। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे जीवोंको कण्ट नहीं पहुँचाता, वे जीव भी उसके जीवन और अर्थकी हानि नहीं करते। सत्यके बिना कोई भी मनुष्य मृत्युकी सेनाका सामना नहीं कर सकता, इसलिये असत्यको त्याग देना चाहिये; क्योंकि अमृतत्व सत्यमें ही है। अतः मनुष्यको सत्यव्रतका आचरण करना चाहिये, सत्ययोगमें तत्पर रहना चाहिये और इन्द्रियोंका दमन करना चाहिये। इस प्रकार सत्यके द्वारा ही वह मृत्युपर विजय प्राप्त करे। अमृत और मृत्यु—ये दोनों इस शरीरमें ही विद्यमान हैं। मोहसे मृत्यु होती है और सत्यसे अमरत्व प्राप्त होता है। अतः अब मैं हिसासे दूर रहूँगा, सत्यकी खोज करूँगा, काम और क्रोधको हृदयसे निकाल दूँगा, सुख-दुःखमें समान रहूँगा, जिसमें दूसरोंको सुख मिले ऐसा आचरण करूँगा और मृत्युके भयसे मुक्त हो जाऊँगा। मैं (निवृत्तिपरायण होकर) शान्तियज्ञका अनुष्ठान करूँगा, इन्द्रियोंका दमन करूँगा, मननशील होकर ब्रह्मयज्ञमें तत्पर रहूँगा तथा जपरूप वाग्यज्ञ, ध्यानरूप मनोयज्ञ और गुरु-शुश्रूषादिरूप कर्मयज्ञका आचरण करूँगा। जिसकी वाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा जो तप, त्याग और सत्यमें तत्पर रहता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संसारमें ज्ञानके समान कोई नेत्र नहीं है, सत्यके समान कोई तप नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं

है और त्यागके समान कोई सुख नहीं है। एकान्तवात, समता, सत्यभाषण, सदाचार, अहिंसा, सरलता और सब प्रकारके काम्यकर्मोंसे निवृत्ति—इनके समान ब्राह्मणका कोई और धन नहीं है। पिताजी! जब एक दिन आपको मरना ही है तो इस धन, स्वजन अथवा स्त्री आदिसे क्या

सेना है? आप अपने अन्तःकरणमें स्थित आत्माको खोजिये। सोचिये तो सही आज आपके पिता-पितामह कहाँ चले गये। भौंमजी कहते हैं—राजन्! पुत्रके बचन सुनकर पिताने जो कुछ किया, वही सत्यधर्ममें तत्पर रहकर तुम भी करो।

मुख-दुःखका विवेचन और त्यागकी महिमा

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! धनी और निर्धन दोनों ही स्वतंत्रतासे व्यवहार करते हैं, फिर भी उन्हें सुख और दुःखकी प्राप्ति कैसे होती है?

भौंमजी बोले—राजन्! कुछ दिन हुए इस विषयमें मनुष्य शम्पाक नामके एक शान्त, जीवन्मुक्त और त्यागी ब्राह्मणने इस प्रकार कहा था—इस संसारमें जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, (वह धनी हो या निर्धन) उसे जन्मसे ही मुख-दुःख घेर लेते हैं। विधाता जब उसे सुख और दुःख इन दोनोंमेंसे किसी एकके मार्गपर ले जाय तो इसे न तो सुख पाकर प्रसन्न होना चाहिये और न दुःखमें पड़कर ध्वस्त होना चाहिये। यदि सुख अकिंचन रहोगे तो सुखका आस्वादन कर सकोगे। जो अकिंचन होता है वह आनन्दसे सोता-जागता है। संसारमें अकिंचनतामें ही आनन्द है, यही हितकारक, कल्याणमय और निरापद है तथा इस मार्गमें किसी प्रकारके शत्रुका भी खटकना नहीं है। मैं तोनों लोकोंपर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अकिंचन, शूद्र और सब ओरसे विरक्त पुरुषके समान कोई दूसरा दिखायो नहीं देता। मैंने अकिंचनता और राज्यकी तराजूपर रखकर तीता तो गुणोंमें अधिक होनेके कारण राज्यसे भी अकिंचनताका ही भार अधिक निकला। अकिंचनता और राज्यमें यह बड़ा भारी अन्तर है कि धनवान् पुरुष सर्वदा इस प्रकार धनवादी रहता है मानो मौतके मुंहमें पड़ा हो। जो मनुष्य धनको त्याग कर मुक्तत्वहण हो गया है उसे अग्नि, अरिष्ट, मृत्यु या चोर किसीका भी भय नहीं रहता। यह स्वेच्छासे विचरता है, बिना बिछाये पूर्वोपर सोता है, बाँहका तकिया लगाता है और शान्तिसे जीवन बिताता है। देवतालोग भी उसकी स्तुति करते हैं। धनवान् तो क्रोध और लोभके कारण अपने आपको

मूल रहता है। उसकी निगाह टेढ़ी रहती है, मुँह झुल जाता है और भीँवें चढ़ी रहती हैं। उसे पाप-ही-पाप सूझता है, क्रोधके कारण वह ओठ चबाता है और कठोर भाषण करता है। यह यदि सारे पृथ्वी भी बनेको तैयार हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा? वह सर्वदा सधमीकी ही गोबरमें रहता है और वह उस मूलको मोहमें डालती रहती है। बापु जैसे शरद् ऋतुके बादलोंको उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार सधमी उसके चित्तको हर लेती है। वह अपनेको बड़ा रूप-वान् और धनवान् समझता है और ऐसा मानता है कि मैं बड़ा कुलीन और सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। इन कारणोंसे उसका चित्त भतवाला हो जाता है। भोग-सक्त हो जानेके कारण वह बाप-बादोंके जोड़े हुए माल-मतेको उड़ा देता है और इस प्रकार धनहीन हो जानेपर दूसरोंका धन छीननेका विचार करने लगता है। इस तरह जब वह मर्यादाका उल्लङ्घन करता है और जहाँ-सहाँसे धन-संग्रहको चेष्टा करने लगता है तो राजपुरुष उसको इस प्रवृत्ति-में बाधा उपस्थित करते हैं। इस प्रकार उस पुरुषको संसारमें तरह-तरहके दुःखोंका सामना करना पड़ता है। अतः अनित्य शरीरोंके साथ सगे हुए पुत्रपुत्रा आदि लोकधर्मोंकी ओर न देखकर अपने दूषित आचरणोंसे अवरण प्राप्त होनेवाले इन महान् दुःखोंको विचारपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये। कोई भी मनुष्य त्याग किये बिना न तो सुख पा सकता है, न परमात्माको पा सकता है और न निर्भय होकर सो सकता है; अतः सुप्त सर्वस्व त्याग कर सुखी हो जाओ।

युधिष्ठिर! पहले शम्पाक मुनिने हस्तिनापुरमें मनुष्य के बातें कही थीं। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है।

उपदेश कीजिये, जिससे मैं क्रमशः उसका आचरण कर सकूँ।'

पिताने कहा—बेटा ! मनुष्यको चाहिये कि पहले ब्रह्मचर्यव्रत लेकर वेदाध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके पितरोंकी सद्गतिके लिये पुत्र उत्पन्न करे और अग्न्याधानपूर्वक यज्ञादि करे, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रममें रहे और फिर संन्यासी हो जाय।

पुत्र बोला—पिताजी ! यह लोक तो अत्यन्त ताड़ित और सब ओरसे घिरा हुआ जान पड़ता है, इसमें अमोघ वस्तुओंका पतन हो रहा है; फिर भी आप निश्चिन्तसे होकर कैसे बातें कर रहे हैं ?

पिताने कहा—बेटा ! तुम मुझे डराते क्यों हो ? भला, यह लोक किससे ताड़ित है, कौन इसे सब ओरसे घेरे हुए हैं और इसमें कौन-सी अमोघ वस्तुओंका पतन हो रहा है ?

पुत्र बोला—देखिये, मृत्यु इसे अत्यन्त ताड़ित कर रही है, जरावस्थाने इसे सब ओरसे घेर रक्खा है और दिन-रात इसमें नित्य पतित होते (आते-जाते) रहते हैं ? यह बात आपके ध्यानमें कैसे नहीं आती ? अमोघ रात्रियाँ नित्य ही आती हैं और चली जाती हैं। यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मौत मेरे कहनेसे क्षणभर भी नहीं रुकेगी। यह सब जानकर भी मैं अपने कल्याणसाधनमें किस प्रकार ढील डाल सकता हूँ ? जबकि प्रत्येक रात्रिके बीतनेके साथ आयु क्षीण हो रही है तो समझदार मनुष्यको यही समझना चाहिये कि उसका दिन व्यर्थ ही गया; ऐसी स्थितिमें छिछले जलमें रहनेवाली मछलीके समान कौन सुख मान सकता है ? मनुष्यकी कामनाएँ पूर्ण होने भी नहीं पातीं कि मृत्यु उसे दबोच लेती है; इसलिये जो काम कल्याणकारक हो उसे आज ही कर डालो, समयको हाथसे मत निकलने दो; क्योंकि मृत्यु तो काम पूरे न होनेपर भी प्राणियोंको खींच ही ले जायगी। जो काम कल करना हो उसे आज करो और जो दोपहर बाद करना हो उसे पहले ही पूरा कर लो; क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ है या नहीं। यह कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु हो जायगी। अतः युवावस्थामें ही मनुष्यको धर्मका आचरण करना चाहिये; क्योंकि जीवनका कोई ठिकाना नहीं है। धर्माचरण करनेसे मनुष्यका यश होता है और उसे इहलोक तथा परलोकमें सुख मिलता है। जो मनुष्य मोहमें डूबा रहता है, वही पुत्र और स्त्रीके लिये खटपटमें लगा रहता है और कार्य-अकार्य कुछ भी करके उनका पोषण करता है। उसके पास पत्नी और

पशुओंकी अधिकता होती है और उन्हींमें उसका चित्त आसक्त रहता है। वह निरन्तर भोगोंके ही संप्रहमें लगा रहता है, फिर भी उनसे उसकी तृप्ति नहीं होती। किंतु ऐसी स्थितिमें ही मौत उसे इस प्रकार उठा ले जाती है जैसे व्याघ्री अपने सोते हुए शिकारको। वह सोचता है कि यह काम तो पूरा हो गया, यह अभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है किंतु इस धुनमें मस्त हुए उस पुरुषको मौत ऋट अपने वशमें कर लेती है। मनुष्य अपने खेत, दूकान और घरके ही चक्करमें पड़ा रहता है; उनके लिये तरह-तरहके कर्म करता है। परंतु उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उसे उठाकर ले जाती है। मनुष्य दुर्बल हो या बलवान्, शूरवीर हो या डरपोक, अथवा मूर्ख हो या विद्वान्, मौत उसकी समस्त कामनाओंके पूर्ण होनेसे पहले ही उसे उठा ले जाती है। पिताजी ! जब इस शरीरमें मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेकों कारणोंसे होनेवाले दुःखोंका ताँता लगा ही रहता है तो आप इस प्रकार निश्चिन्तसे हुए क्यों बैठे हैं ? मौत और बुढ़ापा—ये दोनों तो जीवके जन्मके साथ लगे हुए हैं। इन दोनोंका सभी स्थावर-जङ्गलोंसे सम्बन्ध है। अतः ग्राम या नगरमें रहकर स्त्री-पुत्रोंमें आसक्ति रखना तो जीवको बाँधनेवाली रस्सीके ही समान है। केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट सकते। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे जीवोंको कष्ट नहीं पहुँचाता, वे जीव भी उसके जीवन और अर्थकी हानि नहीं करते। सत्यके बिना कोई भी मनुष्य मृत्युकी सेनाका सामना नहीं कर सकता, इसलिये असत्यको त्याग देना चाहिये; क्योंकि अमृतत्व सत्यमें ही है। अतः मनुष्यको सत्यव्रतका आचरण करना चाहिये, सत्ययोगमें तत्पर रहना चाहिये और इन्द्रियोंका दमन करना चाहिये। इस प्रकार सत्यके द्वारा ही वह मृत्युपर विजय प्राप्त करे। अमृत और मृत्यु—ये दोनों इस शरीरमें ही विद्यमान हैं। मोहसे मृत्यु होती है और सत्यसे अमरत्व प्राप्त होता है। अतः अब मैं हिंसासे दूर रहूँगा, सत्यकी खोज करूँगा, काम और क्रोधको हृदयसे निकाल दूँगा, सुख-दुःखमें समान रहूँगा, जिसमें दूसरोंको सुख मिले ऐसा आचरण करूँगा और मृत्युके भयसे मुक्त हो जाऊँगा। मैं (निवृत्तिपरायण होकर) शान्तियज्ञका अनुष्ठान करूँगा, इन्द्रियोंका दमन करूँगा, मननशील होकर ब्रह्मयज्ञमें तत्पर रहूँगा तथा जपरूप वाग्यज्ञ, ध्यानरूप मनोयज्ञ और गुरु-शुश्रूषादिरूप कर्मयज्ञका आचरण करूँगा। जिसकी वाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा जो तप, त्याग और सत्यमें तत्पर रहता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संसारमें ज्ञानके समान कोई नेत्र नहीं है, सत्यके सामने कोई भी नहीं है, सत्यके सामने कोई भी नहीं है, सत्यके सामने कोई भी नहीं है, सत्यके सामने कोई भी नहीं है।

है और त्यागके समान कोई सुख नहीं है। एकान्तवास, समता, सत्यभाषण, सदाचार, अहिंसा, सरलता और सब प्रकारके काम्यक्रमोंसे निवृत्ति—इनके समान ब्राह्मणका कोई और धन नहीं है। पिताजी! जब एक दिन आपको मरना ही है तो इस धन, स्वजन अथवा स्त्री आदिसे क्या

लेना है? आप अपने अन्तःकरणमें स्थित आत्माको खोजिये। सोचिये तो सही आज आपके पिता-पितामह कहां चले गये।

भ्रीष्मज्जी कहते हैं—राजन्! पुत्रके पचन मुनकर पिताने जो कुछ किया, वही सत्यधर्ममें तत्पर रहकर तुम भी करो।

मुख-दुःखका विवेचन और त्यागकी महिमा

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! धनी और निर्धन दोनों ही स्वतंत्रतासे व्यवहार करते हैं, फिर भी उन्हें सुख और दुःखकी प्राप्ति कैसे होती है?

भ्रीष्मज्जी बोले—राजन्! कुछ दिन हुए इस विषयमें मूमसे शम्पाक नामके एक शान्त, जीवन्मुक्त और त्यागी ब्राह्मणने इस प्रकार कहा था—इस संसारमें जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, (वह धनी हो या निर्धन) उसे जन्मसे ही सुख-दुःख घेर लेते हैं। विधाता जब उसे सुख और दुःख इन दोनोंमेंसे किसी एकके मार्गपर ले जाय तो इसे न तो सुख पाकर प्रसन्न होना चाहिये और न दुःखमें पड़कर घबराता चाहिये। यदि तुम अकिंचन रहोगे तो सुखका आस्वादन कर सकोगे। जो अकिंचन होता है वह आनन्दसे सोता-जागता है। संसारमें अकिंचनतामें ही आनन्द है, यही हितकारक, कल्याणमय और निरापद है तथा इस मार्गमें किसी प्रकारके शत्रुका भी खटकन नहीं है। मैं तीनों लोकोंपर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अकिंचन, शूद्र और सब ओरसे विरक्त पुरुषके समान कोई दूसरा दिखायी नहीं देता। मैंने अकिंचनता और राज्यको तराजूपर रखकर तौला तो गुणोंमें अधिक होनेके कारण राज्यसे भी अकिंचनताका ही भार अधिक निकला। अकिंचनता और राज्यमें यह बड़ा भारी अन्तर है कि धनवान् पुरुष सर्वदा इस प्रकार घबराया रहता है मानो मौतके मुंहमें पड़ा हो। जो मनुष्य धनको त्याग कर मुक्तस्वरूप हो गया है उसे अग्नि, अरिष्ट, मृत्यु या धोर किसीका भी भय नहीं रहता। वह स्वेच्छासे विचरता है, बिना विछाये पुम्बीपर सीता है, बाँहका सँकिया सगता है और शांतिसे जीवन बिताता है। देवतालोग भी उसकी स्तुति करते हैं। धनवान् तो क्रोध और लोभके कारण अपने आपको

भूल रहता है। उसकी निगाह देड़ी रहती है, मुँह धूल जाता है और भीहें चढ़ी रहती हैं। उसे पाप-ही-पाप भ्रमता है, क्रोधके कारण वह ओठ चमता है और बढोर भाषण करता है। यह यदि सारी पृथ्वी भी देनेको तैयार हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा? वह सर्वदा सशुकी हो गोदमें रहता है और वह उस मूर्खकी मोहमें डालती रहती है। यापु जैसे शरद् ऋतुके बादलोंको उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार सशुकी उसके चित्तको हट लेती है। वह अपनेको बड़ा रूप-धान् और धनवान् समझता है और ऐसा मानता है कि मैं बड़ा कुलीन और सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। इन कारणोंसे उसका चित्त मतवाला हो जाता है। भोग-सक्त हो जानेके कारण वह बाप-बादोंके जोड़े हुए माल-मतेको उड़ा देता है और इस प्रकार धनहीन हो जानेपर दूसरोंका धन छीननेका विचार करने लगता है। इस तरह जब वह मर्यादाका उल्लङ्घन करता है और जहाँ-सहाँत धन-संप्रहको छेपटा करने लगता है तो राजपुरुष उसकी इस प्रवृत्तिमें याया उपस्थित करते हैं। इस प्रकार उस पुरुषको संसारमें तरह-तरहके दुःखोंका सामना करना पड़ता है। अतः अनित्य शरीरोंके साथ सगं हुए पुर्वयणा आदि लोचधर्मोंकी ओर न देखकर अपने दूषित आचरणोंसे अवश्य प्राप्त होनेवाले इन महान् दुःखोंकी विचारपूर्वक चिन्तना करनी चाहिये। कोई भी मनुष्य ह्याप किये बिना न तो सुख या सकता है, न परमात्माकी या सकता है और न निर्भय होकर सी सकता है; अतः तुम सर्वस्य त्याग कर सुखी हो जाओ।'

युधिष्ठिर! पहले शम्पाक मुनिने हस्तिनापुरमें मूमसे ये बातें कही थीं। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है।

तृष्णात्यागके विषयमें मञ्जुका दृष्टान्त तथा विदेहराज जनक और मुनिवर बोध्यकी उक्तियाँ

राजा युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! यदि कोई मनुष्य तरह-तरहके उद्योग करनेपर भी धन न पा सके तो इस धनतृष्णामें प्रसूत रहते हुए उसे क्या करनेसे सुख मिल सकता है ?

भीष्मजी बोले—राजन् ! सबके प्रति समताका भाव रखना, धनादिके लिये विशेष प्रयत्नमें न पड़ना, सत्यभाषण करना, भोगोंसे विरक्त रहना और कर्ममें आसक्त न होना—इन पाँच बातोंके होनेसे मनुष्य सुख पा सकता है। इस विषयमें एक बार मञ्जुने विरक्त होकर जो कुछ कहा था, वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ।

मञ्जुने धनोपार्जनके लिये बहुत प्रयत्न किया, किन्तु उसे सफलता न मिली। तब थोड़े-से बच्चे-बच्चे धनसे उसने भार सहने योग्य वो बछड़े खरीदे। एक दिन उन्हें राधानेके लिये वह जुगुप्से जोतकर ले चला। रास्तेमें एक ऊँट बँटा था। वे उसे धीचमें करके एकदम बौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दनके पास पहुँचे तो ऊँटकी बड़ा बुरा लगा और वह बड़ा होकर उन दोनोंको गर्दनपर लटकाये बड़े जोरसे बौड़ने लगा। इस प्रकार उस उन्मत्त ऊँटके द्वारा अपहरण किया जाते हुए बछड़ोंको मरते देखकर मञ्जु कहने लगा, "मनुष्य फंसा ही चतुर हो, किन्तु उसके भाग्यमें नहीं होता तो प्रयत्न करनेपर भी उसे धन नहीं मिल सकता। पहले श्लेष्मणों अशरफालताओंका सामना करनेपर भी मैं धनोपार्जनकी चेष्टामें लगा ही था, सो देखो, विधाताने इन बछड़ोंके बहाने ही मेरे सारे प्रयत्नको मिट्टीमें मिला दिया। इस समय पाकतालीय न्यायसे ही यह ऊँट मेरे बछड़ोंको लटकाये धधर-उधर बौड़ रहा है। मेरे दोनों प्यारे बछड़े ऊँटकी गर्दनमें मणियोंके समान लटके हुए हैं। यह एकमात्र बँचकी ही सीला है। यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिलायी देता है तो लोगोंनेपर वह भी बँचका ही किया जान पड़ता है। अतः जिसे सुखकी इच्छा हो, उसे पराग्यका ही आश्रय लेना चाहिये। जो पुरुष धनोपार्जनको चिन्ता छोड़कर उपरत हो जाता है, वह सुखको नीब रोता है। अहा ! शुक्र-देवमुनिने क्या ही अच्छा कहा है—'जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओंको पा लेता है और जो उनका सर्वथा त्याग कर देता है, उन दोनोंमें कामनाओंको पानेवालेकी अपेक्षा त्यागनेवाला ही श्रेष्ठ है।'

"ओ कामनाओंके दास ! तू सब प्रकारकी कर्मयाचनाओंसे अलग हो जा, शान्ति धारण कर, विषयासक्तिको

छोड़ दे। इस अर्थयासनाने तुम्हें बार-बार छकाया है, तो भी तू इससे उपरत नहीं होता। तूने बार-बार धन संकल्प किया और वह बार-बार नष्ट होता गया। ओ मूढ़ ! भला, इस अर्थलोलुपतासे तू कब अपना पिण्ड छुड़ायेगा ? अरे ! मेरी फंसी मूर्खता है, जो मैं तेरा खिलौना बना हुआ हूँ। ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस प्रकार दूसरोंका दास बनकर रहेगा। काम ! निश्चय ही तेरा हृदय चञ्चक बना हुआ है। इसीसे संकल्पों अनर्थसे व्याप्त होनेपर भी इसके दुकड़े नहीं होते। मैं तेरी जड़को भी खूब जानता हूँ। तू संकल्पसे उत्पन्न होता है। अच्छा, मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा, तब तो तू मूलसहित नष्ट हो जायगा। यों तो धनके संकल्पमें ही सुख नहीं है, वह मिल जाय तो भी चिन्ता ही बढ़ती है और यदि एक बार मिलकर नष्ट हो जाय तब तो मोत ही आ जाती है तथा उद्योग करनेपर भी वह निश्चय नहीं होता कि वह मिलेगा भी या नहीं। मिल भी जाय तो इससे संतोष नहीं होता, फिर और भी पानेकी तृष्णा बढ़ती है। गङ्गा-जलको पीकर जैसे-जैसे उत्तरोत्तर उसे पीते रहनेकी ही इच्छा होती है, उसी प्रकार धनका स्वभाव भी तृष्णाकी निवृत्ति न होने देना ही है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तू मेरा सत्यानास करनेवाला ही है, इसलिये अब मेरा पिण्ड छोड़ दे। जिस प्राणने मेरे इस भूतसमष्टिरूप शरीरमें बसेरा किया है वह भी स्वेच्छासे इसमें रहे अथवा चला जाय। तुम जो अहंकारादि हो, काम और लोभके ही अनुचर हो। मेरा तुमसे कोई नेह-नाता नहीं है, अतः अब कामनाओंको छोड़कर मैं सत्यका ही आश्रय लूँगा। मैं सब भूतोंको अपने शरीर और मनमें देखते हुए बुद्धिको योगमें, चित्तको श्रवण-मननादिकमें और आत्माको ब्रह्ममें लगाऊँगा। इस प्रकार सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर आनन्दसे सर्वत्र विचरूँगा, जिससे कि फिर तू मुझे दुःखोंमें न पटक सके। काम ! तृष्णा, शोक और परिश्रम इनका उत्पत्तिस्थान तू ही है। मैं तो समझता हूँ, धनका नाश होनेपर जो दुःख होता है वही सबसे बड़का है। धनमें जो थोड़ा-सा सुखका अंश देखा जाता है, वह भी दुःखके ही लिये है। जिस पुरुषके पास धन होनेका संदेह होता है, उसे लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे नित्यप्रति तरह-तरहकी पीडाएँ देकर तंग करते रहते हैं। यह बात तो मैं बहुत चिन्तिते जानता था कि अर्थ-लोलुपता दुःखरूप है। काम ! तेरा पेट भरना बड़ा कठिन काम है। तू पातालके समान कुपूर है। तू मुझे दुःखोंमें

फँसना चाहता है। किन्तु अब तू मुझपर फिर अधिकार नहीं जमा सकता। बँवरा घनका नाम होनेसे आज मुझे बँवराम्य प्राप्त हुआ है; अतः अब अत्यन्त उपरत होकर मैं भोगोंको इच्छा नहीं करूँगा। अबतक मैंने बहुत दुःख सहे हैं, मैं ऐसा मूर्ख था कि कुछ समझता ही नहीं था। इस समय घनका नाम होनेसे मेरी सब लक्ष्मण मिट गयो; अब मैं भोजी सोऊँगा। काम! मैं मनकी सारी चेष्टाओंको छोड़कर तुम्हें दूर कर दूँगा। अब तू मेरे पास नहीं रह सकेगा।

“जो लोग मेरा तिरस्कार करेंगे उन्हें मैं क्षमा करूँगा, जो मुझे कष्ट पहुँचावेगा उसका कोई अहित नहीं करूँगा, जो द्वेष करेगा उसके अप्रिय व्यवहारका कोई विचार न करके उससे भोठी-भोठी बातें कहेंगे। मैं तुष्य और स्वस्थचित्त रहूँगा तथा जो कुछ अनायास ही प्राप्त होगा उसीसे निर्वाह कर लूँगा। तू मेरा शत्रु है, मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने दूँगा। तू अच्छी तरह समझ ले, मुझे बँवराम्य, सुख, तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा और सर्वमूतदया—ये सभी गुण प्राप्त हो गये हैं। अतः काम, लोभ, तुष्णा और कृपणताको चाहिये कि मुझे छोड़कर चले जायें। अब मैं सत्त्वगुणमें स्थित हो गया हूँ। अज काम और लोभसे छुटकारा पाकर मैं सुखी हो गया हूँ। अतः अब अज्ञानियोंकी तरह मैं लोभमें फँसकर दुःख नहीं पाऊँगा। मनुष्य जिस-जिस कामनाको छोड़ देता है, उसीकी ओरसे सुखी ही जाता है, कामनाके बसोभूत होकर तो यह सर्वदा दुःख ही पाता है। दुःख, निलंजता और असंतोष—ये काम और श्लोषसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं; अतः अब मैं परब्रह्ममें प्रतिष्ठित हूँ, पूर्णतया शान्त हूँ और कर्मकृतापसे मुक्त हो गया हूँ तथा मुझे विषुद्ध अत्यन्तका अनुभव हो रहा है। इस लोकमें जो विषय-सुख और दिव्य महान् सुख हैं, वे तुष्णासपसे होनेवाले सुखके सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं हैं।”

राजन्! इस प्रकारकी बुद्धि पाकर मझि विरवत हो गया और संय प्रकारकी कामनाओंको त्यागकर उसने ब्रह्म-नन्द प्राप्त किया। दो अच्छीके नाशसे ही उसे अमरत्व प्राप्त हो गया। उसने कामकी जड़ कष्ट शस्त्रों और अत्यन्त सुखी हो गया। एक बार परम शान्त दिवेहराज जनकने

भी कहा था—मेरा धन अनन्त-सा है, किन्तु वस्तुतः मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि मिथिलापुरी जल रही है तो इमने मेरा कुछ भी नहीं जलता।

कहते हैं, किसी समय नहुषयुव यथातिने परम विरक्त और शान्तात्मा बोधय ऋषिते पूछा था, महाप्रज्ञ! आप मुझे ऐसा उपदेश कौनिये जिससे शान्ति मिले। ऐसी बात बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शान्त और सानन्द होकर विचरते हैं।

बोध्यने कहा—राजन्! मैं किसीको उपदेश नहीं देता हूँ, बल्कि दूसरोंके उपदेशके अनुसार आचरण करता हूँ। मैं तुम्हें अपनेको प्राप्त हुए उपदेशका लक्षण बताना हूँ। उसपर तुम स्वयं विचार करो। पिङ्गला, कुरुरपशी, सर्प, सारङ्ग, बाण अनन्यावाता और कुमारी—ये छः मेरे गुरु हैं। महाराज! आशा बड़ी प्रबल है, सुख तो निरारागमें ही है। पिङ्गला आशाको निरारागमें परिणत करके गुप्तसे सोपी थी। कुरुरपशी भासका टुकड़ा लिये जाता था, उसे दूसरे पक्षी मारने लगे। तब उस टुकड़ेको फँकनेसे ही उसे चैन मिला। सर्प दूसरोंके बनाने हुए घरमें पुसकर ही मौजसे रहता है; अतः घर बनानेकी लक्ष्मणमें पड़ना दुःखद ही है, इसमें कुछ भी सुख नहीं है। जिस प्रकार सारङ्गपक्षी किसीसे बँर न करके गहिसावृत्तसे अपना निर्याह करता है, उसी प्रकार मूनिजन मिशावृत्तिका आश्रय लेकर आनन्दमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार एक बाण बनाने-वालेको देला, यह अपने काममें ऐसा बतचित्त था कि उसे अपने पाससे होकर निकली हुई राजाकी सवारीकी भी पता नहीं लगा। (एक कुमारी कन्या धान बूट रही थी। इससे उसके हाथकी छड़ियोंका शब्द होना था। उतने संकोचयन और सबकी तीक्ष्णकी दोनो हाथोंमें केवल एक-एक घूड़ी रहने दो। इससे उनका शब्द होना बंद हो गया। इससे मैंने निरचय किया कि) बहुत लोग साम-साय रहते हैं तो उनमें कलह होता है और दो-दो रह जाते हैं तो भी बातचीत तो होती ही है। अतः उस कुमारीको एक-एक घूड़के समान मैं भी अकेला विचरूँगा।

संतजनोंके आचरणके विषयमें प्रह्लाद और अवधूत ब्राह्मणका संवाद

राजा मुष्टिष्ठिरने पूछा—बाबाजी! आप सदावारके नियमोंको जाननेवाले हैं। कृपया यह बताइये कि मनुष्यकी किस प्रकारका आचरण करते हुए निःशोक होकर पृथ्वीपर

विचरना चाहिये तथा ऐसा शान्त काम है जितने करनेसे यह उत्तम फल प्राप्त कर सकता है?

भीष्टमजी बोले—राजन्! इस विषयमें यह पुरातन

तृष्णात्यागके विषयमें मञ्जुका दृष्टान्त तथा विदेहराज जनक और मुनिवर बोध्यकी उक्तियाँ

राजा युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी! यदि कोई मनुष्य तरह-तरहके उद्योग करनेपर भी धन न पा सके तो इस धनतृष्णामें ग्रस्त रहते हुए उसे क्या करनेसे सुख मिल सकता है?

भीष्मजी बोले—राजन्! सबके प्रति समताका भाव रखना, धनादिके लिये विशेष खटपटमें न पड़ना, सत्यभाषण करना, भोगोंसे विरक्त रहना और कर्ममें आसक्त न होना—इन पाँच बातोंके होनेसे मनुष्य सुख पा सकता है। इस विषयमें एक बार मञ्जुने विरक्त होकर जो कुछ कहा था, वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ।

मञ्जुने धनोपार्जनके लिये बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसे सफलता न मिली। तब थोड़े-से बचे-खुचे धनसे उसने भार सहने योग्य दो बछड़े खरीदे। एक दिन उन्हें सघानेके लिये वह जुएमें जोतकर ले चला। रास्तेमें एक ऊँट बँठा था। वे उसे वीचमें करके एकदम दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दनके पास पहुँचे तो ऊँटको बड़ा बुरा लगा और वह खड़ा होकर उन दोनोंको गर्दनपर लटकाये वड़े जोरसे दौड़ने लगा। इस प्रकार उस उन्मत्त ऊँटके द्वारा अपहरण किये जाते हुए बछड़ोंको मरते देखकर मञ्जु कहने लगा, “मनुष्य कंसा ही चतुर हो, किंतु उसके भाग्यमें नहीं होता तो प्रयत्न करनेपर भी उसे धन नहीं मिल सकता। पहले अनेकों असफलताओंका सामना करनेपर भी मैं धनोपार्जनकी चेष्टामें लगा ही था, सो देखो, विघाताने इन बछड़ोंके बहाने ही मेरे सारे प्रयत्नको मिट्टीमें मिला दिया। इस समय काफतालीय न्यायसे ही यह ऊँट मेरे बछड़ोंको लटकाये इधर-उधर दौड़ रहा है। मेरे दोनों प्यारे बछड़े ऊँटकी गर्दनमें मणियोंके समान लटके हुए हैं। यह एकमात्र दंबकी ही लीला है। यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखायी देता है तो खोजनेपर वह भी दंबका ही किया जान पड़ता है। अतः जिसे सुखकी इच्छा हो, उसे वैराग्यका ही आश्रय लेना चाहिये। जो पुरुष धनोपार्जनकी चिन्ता छोड़कर उपरत हो जाता है, वह सुखकी नाँद सोता है। अहा! शुक-देवमुनिने क्या ही अच्छा कहा है—“जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओंको पा लेता है और जो उनका सर्वथा त्याग कर देता है, उन दोनोंमें फामनाओंको पानेवालेकी अपेक्षा त्यागनेवाला ही श्रेष्ठ है।”

“ओ कामनाओंके दास! तू सब प्रकारकी कर्मवासनाओंसे अलग हो जा, शान्ति धारण कर, विषयासक्तिको

छोड़ दे। इस अर्थवासनाने तुम्हें बार-बार छकाया है, तो भी तू इससे उपरत नहीं होता। तूने बार-बार धन संचय किया और वह बार-बार नष्ट होता गया। ओ मूढ़! भला, इस अर्थलोलुपतासे तू कब अपना पिण्ड छुड़ायेगा? अरे! मेरी कंसी मूर्खता है, जो मैं तेरा खिलौना बना हुआ हूँ। ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस प्रकार दूसरोंका दास बनकर रहेगा। काम! निश्चय ही तेरा हृदय वज्रका बना हुआ है। इसीसे संकड़ों अनर्थोंसे व्याप्त होनेपर भी इसके टुकड़े नहीं होते। मैं तेरी जड़को भी खूब जानता हूँ। तू संकल्पसे उत्पन्न होता है। अच्छा, मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा, तब तो तू मूलसहित नष्ट हो जायगा। यों तो धनके संकल्पमें ही सुख नहीं है, वह मिल जाय तो भी चिन्ता ही बढ़ती है और यदि एक बार मिलकर नष्ट हो जाय तब तो मौत ही आ जाती है तथा उद्योग करनेपर भी यह निश्चय नहीं होता कि वह मिलेगा भी या नहीं। मिल भी जाय तो इससे संतोष नहीं होता, फिर और भी पानेकी तृष्णा बढ़ती है। गङ्गा-जलको पीकर जैसे-जैसे उत्तरोत्तर उसे पीते रहनेकी ही इच्छा होती है, उसी प्रकार धनका स्वभाव भी तृष्णाकी निवृत्ति न होने देना ही है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तू मेरा सत्यानाश करनेवाला ही है, इसलिये अब मेरा पिण्ड छोड़ दे। जिस प्राणने मेरे इस भूतसमष्टिरूप शरीरमें बसेरा किया है वह भी स्वेच्छासे इसमें रहे अथवा चला जाय। तुम जो अहंकारादि हो, काम और लोभके ही अनुचर हो। मेरा तुमसे कोई नेह-नाता नहीं है, अतः अब कामनाओंको छोड़कर मैं सत्यका ही आश्रय लूँगा। मैं सब भूतोंको अपने शरीर और मनमें देखते हुए बुद्धिको योगमें, चित्तको श्रवण-मननादिकमें और आत्माको ब्रह्ममें लगाऊँगा। इस प्रकार सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर आनन्दसे सर्वत्र विचरूँगा, जिससे कि फिर तू मुझे दुःखोंमें न पटक सके। काम! तृष्णा, शोक और परिश्रम इनका उत्पत्तिस्थान तू ही है। मैं तो सममत्ता हूँ, धनका नाश होनेपर जो दुःख होता है वही सबसे बढ़कर है। धनमें जो थोड़ा-सा सुखका अंश देखा जाता है, वह भी दुःखके ही लिये है। जिस पुरुषके पास धन होनेका संदेह होता-है, उसे लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे नित्यप्रति तरह-तरहकी पीडाएँ देकर तंग करते रहते हैं। यह बात तो मैं बहुत दिनोंसे जानता था कि अर्थ-लोलुपता दुःखरूप है। काम! तेरा पेट भरना बड़ा कठिन काम है। तू पातालके समान गुप्तर है। तू मुझे दुःखोंमें

फँसाना चाहता है। किंतु अब तू मुझपर फिर अधिकार नहीं जमा सकता। बँववश धनका नाश होनेसे आज मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है; अतः अब अत्यन्त उपरत होकर मैं भोगोंकी इच्छा नहीं करूँगा। अबतक मैंने बहुत दुःख सहे हैं, मैं ऐसा मूर्ख था कि कुछ समझता ही नहीं था। इस समय धनका नाश होनेसे मेरी सब खटपट मिट गयी; अब मैं जीजते सोऊँगा। काम ! मैं मनकी सारी चेष्टाओंको छोड़कर तुम्हें दूर कर दूँगा। अब तू मेरे पास नहीं रह सकेगा।

“जो लोग मेरा तिरस्कार करेंगे उन्हें मैं क्षमा करूँगा, जो मुझे कष्ट पहुँचावेगा उसका कोई अहित नहीं करूँगा, जो द्वेष करेगा उसके अप्रिय व्यवहारका कोई विचार न करके उससे भीठी-भीठी बातें करूँगा। मैं तृप्त और स्वस्थचित रहूँगा तथा जो कुछ अनायास ही प्राप्त होगा उसीसे निर्वाह कर लूँगा। तू मेरा शत्रु है, मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने दूँगा। तू अच्छी तरह समझ ले, मुझे धर्म, सुख, तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा और सर्वभूतदया—ये सभी गुण प्राप्त हो गये हैं। अतः काम, लोभ, तुष्णा और कृपणताको चाहिये कि मुझे छोड़कर चले जायें। अब मैं सत्त्वगुणमें स्थित हो गया हूँ। आज काम और लोभसे छुटकारा पाकर मैं सुखी हो गया हूँ। अतः अब अज्ञानियोंकी तरह मैं लोभमें फँसकर दुःख नहीं पाऊँगा। मनुष्य जिस-जिस कामनाको छोड़ देता है, उसीको ओरसे सुखी ही जाता है, कामनाके बशीरूत होकर तो वह सर्वदा दुःख ही पाता है। दुःख, निर्लज्जता और असंतोष—ये काम और श्रेष्ठसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं; अतः अब मैं परब्रह्ममें प्रतिष्ठित हूँ, पूर्णतया शान्त हूँ और कर्मकलापसे मुक्त हो गया हूँ तथा मुझे विशुद्ध आनन्दका अनुभव हो रहा है। इस लोभमें जो विषय-सुख और दिव्य महान् सुख हैं, वे तृष्णासयसे होने-वाले सुखके सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं हैं।”

राजन् ! इस प्रकारकी बुद्धि पाकर मज्झु विरक्त हो गया और सब प्रकारकी कामनाओंको त्यागकर उसने ब्रह्मानन्द प्राप्त किया। दो बटुङ्गिके ताशसे ही उसे अमरत्व प्राप्त हो गया। उसने कामकी जड़ काट डाली और अत्यन्त सुखी हो गया। एक घार परम शान्त विदेहराज जनकने

भी कहा था—मेरा धन अनन्त-सा है, किंतु वस्तुतः मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि मिथिलापुरी जल रही है तो हमने मेरा कुछ भी नहीं जलता।’

कहते हैं, किसी समय नहुषपुत्र ययातिने परम विरक्त और शान्तात्मा बोध्य ऋषिते पूछा था, ‘महाप्राज्ञ ! आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिये जिससे शान्ति मिले। ऐसी कौन बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शान्त और सानन्द होकर विचरते हैं।’

बोध्यने कहा—राजन् ! मैं किसीको उपदेश नहीं देता हूँ, बल्कि दूसरोंके उपदेशके अनुसार आचरण करता हूँ। मैं तुम्हें अपनेको प्राप्त हुए उपदेशका लक्षण बताता हूँ। उसपर तुम स्वयं विचार करो। विज्ञप्ता, कुररपथी, सर्प, सारङ्ग, माण बनानेवाला और कुमारी—ये छः मेरे गुरु हैं। महाराज ! आशा बड़ी प्रबल है, सुख तो निराशामें ही है। विज्ञप्ता आशाको निराशामें परिणत करके सुखसे सोयी थी। कुररपथी मांसका टुकड़ा लिये जाता था, उसे दूसरे पक्षी मारने लगे। तब उस टुकड़ेको फेंकनेसे ही उसे घन मिला। सर्प दूसरोंके बनाये हुए घरमें घुसकर ही मौजसे रहता है; अतः घर बनानेकी खटपटमें पड़ना दुःखरूप ही है, इसमें कुछ भी सुख नहीं है। जिस प्रकार सारङ्गपथी किसीसे बँर न करके अहिंसावृत्तिसे अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार मृनिजन भिद्यावृत्तिका आश्रय लेकर आनन्दसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक मार एक माण बनाने-वालेको देखा, वह अपने काममें ऐसा दत्तचित्त था कि उसे अपने पाससे होकर निकली हुई राजाकी सबारीका भी पता नहीं लगा। (एक कुमारी कन्या धान कूट रही थी। इससे उसके हाथकी नूँड़ियोंका शब्द होता था। उसने संकीचवरा और सबको सोड़कर दोनों हाथोंमें केवल एक-एक चूड़ी रहने दी। इससे उनका शब्द होना बंद हो गया। इससे मैंने निश्चय किया कि) बहुत लोग साय-साय रहते हैं तो उनमें कलह होता है और दो-दो रह जाते हैं तो भी बातचीत ही होती ही है। अतः उस कुमारीकी एक-एक चूड़ीके समान मैं भी अकेला विचरूँगा।

संतजनोंके आचरणके विषयमें प्रह्लाद और अवधूत ब्राह्मणका संवाद

राजा युधिष्ठिरने पूछा—बादाजी ! आप सबाचारके नियमोंको जाननेवाले हैं। कृपया यह बताइये कि मनुष्यको किस प्रकारका आचरण करते हुए निःशोक होकर पृथ्वीपर म० भा०—१५१

विचरना चाहिये तथा ऐसा कौन काम है जिसे करनेसे वह उत्तम गति प्राप्त कर सकता है ?

भीष्मजी बोले—राजन् ! इस विषयमें यह पुरातन

इतिहास प्रसिद्ध है। इसमें असुरराज प्रह्लाद और अजगर मुनिका संवाद है। एक शुद्धचित्त और निर्विकार ब्राह्मणको पृथ्वीपर विचरते देखकर परम बुद्धिमान् प्रह्लादजीने पूछा था, 'ब्रह्मन् ! आप स्वस्थ, शक्तिमान्, मृदु, जितेन्द्रिय, कर्मारम्भसे दूर रहनेवाले, दूसरोंके दोषोंपर दृष्टि न डालनेवाले, मिष्टभाषी और तत्त्वज्ञ होकर भी बालकोंका-सा आचरण करनेवाले हैं। आपको किसी लामकी इच्छा नहीं है और हानि होने पर आप किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करते। सदा ही तृप्त-से जान पड़ते हैं। आप इन्द्रियोंके विषयोंकी परवा न करके साक्षीके समान मुक्तरूपसे विचरते हैं। मुनिवर ! आपके पास ऐसी क्या बुद्धि, शास्त्रज्ञान या वृत्ति है ? यदि आप उचित समझें तो शीघ्र ही मुझे बतानेकी कृपा करें।'

प्रह्लादजीके इस प्रकार पूछनेपर उन मतिमान् मुनि-श्रेष्ठने उनसे मधुर वाणीमें कहा, 'प्रह्लाद ! देखो, इस जगत्के उत्पत्ति, ह्रास, वृद्धि और नाशका कारण प्रकृति ही है; अतः मैं उनके कारण न हर्षित होता हूँ और न च्युत ही होता हूँ। जितने संयोग हैं उन्हें तुम वियोगमें समाप्त होनेवाले समझो और जितने संचय हैं उनका पर्यवसान विनाशमें ही जानो। यह सब देखकर मैं तो कहीं अपने मनको नहीं लगाता। असुरराज ! पृथ्वीपर जितने स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं, मुझे तो उनकी मृत्यु साफ दिखायी देती है। आकाशमें जो छोटे-बड़े तारे विचर रहे हैं, वे भी समय आनेपर गिरते देखे जाते हैं। इस प्रकार सब प्राणियोंको मृत्युके अधीन देखकर सबमें समान भाव रखते हुए मैं आनन्दसे सोता हूँ। यदि अनायास ही मिल जाय तो कमी-कमी खूब भोजन कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत दिनोंतक विना खाये ही रह जाता हूँ। कमी चावलकी कमी खाकर रह जाता हूँ और कभी तिलकी खली ही खा लेता हूँ। इस प्रकार चढ़िया-घटिया सनी तरहका भोजन करता रहता हूँ। मैं कमी तो सन, रेशम और चर्मके वस्त्र पहनकर रह जाता हूँ और कमी बड़े मूल्यवान् वस्त्र धारण करता हूँ। यदि देववश कोई

धर्मानुकूल पदार्थ मुझे प्राप्त होता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता और यों किसी दुर्लभ भोगकी कभी इच्छा नहीं करता। मैं सर्वदा इस अजगर-वृत्तिसे ही रहता हूँ। यह व्रत अत्यन्त सुदृढ़, कल्याणमय, शोकहीन, पवित्र और अतुलनीय है। बड़े-बड़े विद्वान् भी इसे स्वीकार करते हैं। जो मूढमति हैं उन्हें ही यह अप्रिय है और वे ही इससे दूर भागते हैं। मेरी मति अविचल है, मैं अपने धर्मसे च्युत नहीं हुआ हूँ, मेरी गति-परिमित है और मैंने भय, राग-द्वेष एवं लोभ-मोहको त्याग दिया है। मैं सर्वथा शुद्ध अन्तःकरणसे इस अजगर-वृत्तिका पालन करता हूँ। अनियतरूपसे जो कुछ फल या भक्ष्य-भोज्यादि मिल जाता है उसीसे निर्वाह कर लेता हूँ तथा प्रारब्धके अनुसार देश-कालकी व्यवस्था रखता हूँ। इस प्रकार कर्ष्य पुरुष जिसका सेवन नहीं करते उस अजगर-व्रतका आचरण करता रहता हूँ। कृपणलोग अर्थसंग्रहके लिये निरन्तर भले-बुरे आदमियोंकी सेवा करते रहते हैं यह देखकर तथा सुख-दुःख, लाभ-हानि, प्रीति-अप्रीति और जीवन-मरण विधाताके हाथमें हैं, ऐसा जानकर मैंने भय, राग, मोह और अभिमानको त्याग दिया है, धर्म और बुद्धिको अपनाया है तथा अब-मैं पूर्णतया शान्त हो गया हूँ। मेरे सोने-बैठनेका कोई नियत स्थान नहीं है, मैं स्वभावसे ही दम, नियम, व्रत, सत्य और शौचका पालन करता हूँ और किसी फलकी मुझे इच्छा नहीं है। इस प्रकार बड़े आनन्दसे मैं इस अजगर-व्रतका आचरण करता हूँ। मन, वाणी और बुद्धिकी उपेक्षा करके इनको प्रिय लगनेवाले विषय-सुखोंकी दुर्लभता तथा अनित्यताको उपलक्षित-सा कराता हुआ अजगर-व्रतका पालन करता हूँ। मूर्खलोग इस अति दुष्कर तपको ठीक-ठीक नहीं समझ सकते; परन्तु मैं तो इसे सर्वथा निर्दोष और अविनाशी समझता हूँ तथा सब प्रकारके दोष और तृष्णाओंको नष्ट करके मनुष्योंमें विचरता रहता हूँ।'

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! जो महापुरुष राग, भय, लोभ, मोह और क्रोधको त्यागकर इस अजगर-व्रतका पालन करता है, वह इस लोकमें आनन्दसे विचस्ता है।

मनुष्यको सद्बुद्धिका आश्रय लेना चाहिये—इस विषयमें काश्यप ब्राह्मण और इन्द्रका संवाद

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! कृपया यह बताइये कि मनुष्यको वन्द्यजन, कर्म, धन और बुद्धि इनमेंसे किसका आश्रय लेना चाहिये ?

भीष्मजी बोले—राजन् ! प्राणियोंका प्रधान आश्रय उनको मति है। मति ही उनके

संसारमें बुद्धि ही उसका कल्याण करनेवाली है। राजा बलि, प्रह्लाद, नमुचि और मङ्गिने भी बुद्धिबलसे ही अपना-अपना अर्थ सिद्ध किया था। संसारमें बुद्धिसे बढ़कर और क्या है ? इस विषयमें इन्द्र और काश्यप ब्राह्मणका संवादरूप

नामका एक बड़ा संपत्ती और तपस्वी ऋषियुव था। जो धनके सबमें धूर किसी धरपने अथवे रथके धक्केले गिरा दिया। गिरनेसे यह बहुत दुखी हुआ और मोघपरा भावने बाहर होकर कहने लगा, 'दुनिपामें निर्धन मनुष्यका जीवन व्यर्थ है, इसलिये अब मैं आत्मघात कर लूँगा।' जो इस प्रकार सुव्यथित देखकर इन्द्र उसके पास शीवद्वका रूप धारण करके आया और कहने लगा, 'मूनिवर! मनुष्य-योनि पानेके लिये तो सभी प्राणी उद्युक्त रहते हैं। जहाँ भी ब्राह्मणत्वकी प्रशंसा तो सभीवे की है। आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण ही और शास्त्रज्ञ भी हैं। ऐसा दुर्भाग्य शरीर पाकर आपको उसमें दोषानुसंधान नहीं करना चाहिये। अजी! जिनके प्रगवान्ने हाथ विधे हैं, उनके लो मन्ने मसी मन्नेरथ मिट हो गये हैं। इस समय आपको बंध धनकी साधना है, उसी प्रकार मैं तो बेवत हाथ पादके लिये ही उद्युक्त हूँ।



मेवक मा किसी हाररी योनिमें जलता नहीं हुए। काश्यप! आपको तो इतने ही साधने संयुक्त रहना चाहिये। इतने अधिक भीर क्या चाहिये? आप तो सभी प्राणियोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मेरी ही क्या बेचिये, मुझे भी कोड़े काट री है, किन्तु हाथ न होनेके कारण इतने घुटकरा भावनेकी मेरेमें शक्ति नहीं है। आशाहाया करना बड़ा पाप है, यह सोचकर ही मैं ऐसा नहीं करता, मितसे भी इतने भी मीम योनिमें न गिरे। इस समय मैं शूनात-योनिमें हूँ, यह बहुत पीन है, परंतु इतकी धोखा कई योनिवा और भी अधिक पीन हैं। मनुष्य धनी हो जानेपर फिर राज्य चाहने लगता है, राज्य मिषनेपर बेवशयके इच्छा करता है और फिर इच्छाव भाग चाहता है। इस प्रकार जगकी मृगा बराबर बहुरी रहती है। निय बहुरी भिन्न जानेपर भी मृति नहीं होती, मृगाकी भाग धानीने नहीं सुखी; बल्कि ईधनेके लियेके सामन वह और भी प्रयत्नन हो जाती है। शोक तो आराम है ही, इसी प्रकार हृष भी हो सकता है। सुख-दुःख तो साथ ही रहा करते हैं, इतकीने इतमें शोक माननेकी क्या भाव है? बुद्धि और इन्द्रिय ही मगन कामना और बर्तनीकी गुण हैं। उन्हें पत्रकेमें बंध पतियोंकी तरह जाने कायमें रचना चाहिये।

देखिये, मायाका चक्र तो ऐसा है कि सभी और प्राणियों की अपनी योनिमें प्रवृत्त रहते हैं, वे भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहते। यही नहीं, अपन संवेदे-गुने और पत-पातावि रोमनि कीदृश मनुष्योंको देखिये, वे भी अपनी योनिमें मत्त रहते हैं। फिर आप तो ब्राह्मण हैं, आपका शरीर नीरोग और सुपांडु है तथा मोरुमें आपकी कोई दुःख भी नहीं बढ़ता। यदि आपको अनिच्छुन करनेवाला कोई राजा बन्यु भी लगा हो तो भी प्राणजगका विचार नहीं करना चाहिये, आप धर्मपातके लिये न्याय हो जायेंगे। यदि आप मेरी बात सुनें और अवसर विचारण करने लो आपकी वेदांग कर्मका ही वास्तविक रूप मिलेगा। आप माणसाणी-के स्वाभाव और अग्निहोत्र जीविये, तप्य जीविये, इन्द्रियों-के जनें रमिये, दान वीजिये और जिनिये की शर्दा मण बनें। जो ब्राह्मण स्वाभावमें लो रहते हैं और धन-माणाविक अन्वयन करते हैं वे जिनी प्रणरणी विराय ब्यां बर्तिये और कोई बुरी बात की ब्यां सोचेंगे? अपने पूर्वजकेमें से एक पतिवत वा और दुर्लभ करने केरकी विराय विराय बनन पर। इस समय योकी तर्क-विचारण ही मेरा विशेष प्रयत्न। जे मायामें मग-मगनेके दुर्लभ करता वा जिनके प्रयत्न। जे मायामें मग-मगनेके दुर्लभ करता वा जिनके प्रयत्न। जे मायामें मग-मगनेके दुर्लभ करता वा जिनके प्रयत्न।

मेरी बुद्धिये हाथ विपनेमें बंदकर केवलमें बनें की बात करी है। देखिये, मेरे शरीरमें कोई लगे हुए हैं, किन्तु इनके होनेमें मैं उन्ने निश्चल नहीं सकता। किन्तु जिनके अन्वयने की हाथ विपने हैं, वे बर्तिये, शील और धामने अपने गमन-कर्ममें हैं। जो बुद्ध विपन हाथके बंधन, दुर्लभ और वेदव्य-धर्म बंधन हैं, वीमाधमन के मो उपायमें नहीं बनें।

मेरी आस्था नहीं थी, उनकी हरएक बातमें शङ्का करता था और मूर्ख होनेपर भी अपनेको बड़ा पण्डित मानता था। विप्रवर ! यह श्रृगाल-योनि मेरे उस कुकर्मका ही परिणाम है। अब मैं रात-दिन कोई ऐसा साधन करना चाहता हूँ जिससे फिर मनुष्य-योनि प्राप्त कर सकूँ। उस योनिमें मैं संतुष्ट और सावधान रहूँ, यज्ञ, दान और तपमें मेरा अनुराग ही, जाननेयोग्य वस्तुको जान सकूँ और त्याज्यको त्याग सकूँ।

तब काश्यप मुनिने आश्चर्यचकित होकर कहा, 'अहो ! तुम तो बड़े कुशल और वृद्धिमान् हो।' ऐसा कहकर ज्ञान-दृष्टिसे देखा तो उसे मालूम हुआ कि यह तो शचीपति इन्द्र हैं। यह जानकर उसने उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा पाकर अपने घर लौट आया।

भीष्मजी बोले—राजन् ! जो श्रद्धावान् और जितेन्द्रिय धनाढ्य पुरुष यज्ञ-दानादि शुभकर्म करते हैं, उन्हें उत्तरोत्तर अधिकाधिक वैभव और सुख प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और

जब वह सोता है तो उसके साथ कर्मफल भी सुप्त हो जाता है। कर्मकी ऐसी गति है कि वह सोते-बैठते, चलते-फिरते और क्रिया करते समय छायाके समान कर्ताके साथ लगा रहता है। जिस मनुष्यने अपने पूर्वजन्मोंमें जैसे-जैसे कर्म किये होते हैं, उन्हें कर्मविधानके अनुसार उनके वैसे ही फल भोगने होते हैं। जिस प्रकार फूल और फल किसीकी प्रेरणाके बिना ही अपने समयपर आ जाते हैं उसी प्रकार पहले किये हुए कर्म भी अपने परिपाकके समयका अतिक्रमण नहीं करते। जैसे वछड़ा हजारों गौओंमेंसे अपनी माताको पहचान लेता है, वैसे ही पहले किया हुआ कर्म भी अपने करनेवालेके पीछे लगा रहता है। जिस प्रकार पहलेसे भिगोकर रक्खा हुआ वस्त्र धोनेसे साफ हो जाता है वैसे ही जो उपवासपूर्वक तपस्या करते हैं, उन्हें कमी समाप्त न होनेवाला महान् सुख मिलता है। जिस प्रकार आकाशमें पक्षियोंके और जलमें मछलियोंके चरणचिह्न दिखायी नहीं देते वैसे ही जानियोंकी गतिकी पता नहीं लगता। अतः जो काम अपने अनुकूल और हितकर जान पड़े वही करना चाहिये।

संसार और शरीरोंके मूलतत्त्वोंका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—बादाजी ! इस स्यावर-जङ्गम जगत्की उत्पत्ति कहाँसे हुई है और प्रलय होनेपर यह कहाँ चला जाता है ? समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि और वायुके सहित इस लोककी रचना किसने की है ? प्राणियोंकी उत्पत्ति, वर्णोंका विभाग, शुद्धि-अशुद्धिके नियम और धर्माधर्मकी विधि—इस सबकी कल्पना कैसे हुई ? जीवित प्राणियोंका जीव कैसा है ? उनमें जो मरते हैं वे कहाँ चले जाते हैं तथा उनका इस लोकसे परलोकमें जानेका क्रम क्या है—ये सब बातें मुझे सुनाइये।

भीष्मजी बोले—राजन् ! इस विषयमें यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार परम तेजस्वी महर्षि भृगु कैलासके शिखरपर बैठे थे। उन्हें देखकर उनसे भरद्वाज मुनिने यही प्रश्न किया। तब भृगुजी बोले, 'मुने ! महर्षियोंके सुननेमें ऐसा आया है कि आरम्भमें एक मानस देव था। वह आदि-अन्तसे रहित, अमेघ और अजर-अमर था। वह 'अव्यय' नामसे प्रसिद्ध तथा शाश्वत, अक्षय और अविनाशी था। उसीसे सब जीवोंकी उत्पत्ति होती है और मरनेपर उसीमें वे लीन होते हैं। उस स्वयम्भू मानस देवने पहले एक तेजोमय दिव्य कमलकी रचना की। उससे वेदस्वरूप ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। वह 'अहंकार' नामसे भी प्रसिद्ध है



और समस्त भूतोंका आत्मा तथा उनकी रचना करनेवाला

है। ये जो पञ्च महाभूत हैं, इनका वास्तविक स्वरूप भी यह ब्रह्मा ही है। पर्वत उसकी अस्थियाँ हैं, पृथ्वी उसका भेद और मांस है, समुद्र रश्मि है, आकाश उदर है, पवन रवात है, अग्नि तेज है, नदियाँ नाडियाँ हैं, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं, आकाश सिर है, पृथ्वी घंटा है और विश्वा भुजाएँ हैं। इस अचिन्त्य पुरुषको जानना सिद्धोंके लिये भी कठिन है। यही भगवान् विष्णु है और 'अनन्त' नामसे प्रसिद्ध है। यह समस्त भूतोंका आत्मा और अन्तर्धामी है। जिनके चित्त मलिन हैं वे इसे नहीं जान सकते।'

भरद्वाजने पूछा—भगवन् ! आकाश, विश्वा, पृथ्वी और वायुका कितना-कितना परिमाण है—यह बताकर मेरा संदेह दूर कीजिये।

भृगुजीने कहा—मुनिवर ! यह आकाश तो अनन्त है। इसमें अनेकों सिद्ध और देवतालोग निवास करते हैं। इसीमें उनके लोक भी हैं। यह बड़ा ही रमणीय है तथा इतना विशाल है कि कहीं इसका अन्त ही नहीं दिखायी देता। ऊपर, जानेवालोंको पृथ्वीके नीचे चन्द्रमा और सूर्य नहीं दिखायी देते। वहाँ अग्निके समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाशसे ही प्रकाशित रहते हैं, किन्तु वे तेजस्वी नक्षत्रगण भी इस आकाशका अन्त नहीं पा सकते; क्योंकि यह अनन्त और दुर्गम है। आकाश ही नहीं, अग्नि, वायु और जलका परिमाण जानना भी-देवताओंके लिये असम्भव ही है। श्रुतियोंने विविध शास्त्रोंमें त्रिलोकों और समुद्रोंके परिमाणोंके विषयमें तो कुछ कहा भी है, परन्तु जो इन्द्रिये परे है और जिसतक इन्द्रियोंकी भी पहुँच नहीं है, उस पर-मात्मका परिमाण कोई कैसे बतायेगा ? आखिर, इन सिद्ध और देवताओंकी गति भी तो परिमित हो है; अतः परमात्माका 'अनन्त' नाम उसके गुणके अनुरूप ही है।

भरद्वाजने पूछा—मुनिवर ! लोकमें ये पाँच धातु ही 'महाभूत' कहलाते हैं, जिन्हें ब्रह्माने सृष्टिके आरम्भमें रचा था और जिनसे ये सब लोक ध्याप्त हैं। परन्तु ब्रह्माजीने तो और भी हजारों भूतोंकी रचनाकी है, फिर इन्हींको 'भूत' कहना कहाँतक युक्तिसंगत है ?

भृगुजी बोले—मुने ! ये पाँचों असीम हैं, इसलिये इन्हें 'महा' कहा जाता है और इन्हींसे समस्त स्मूल भूतोंकी उत्पत्ति होती है; अतः इन पाँचकी ही 'महाभूत' संज्ञा होगी उचित ही है। मनुष्यका शरीर भी इन पाँच भूतोंका ही संघात है। इसमें जो गति है वह पवनका भाग है, सोखलापन आकाशका अंश है, ऊष्मा अग्निका अंश है, लोह आदि तरल पदार्थ जलके अंश हैं और हड्डी-मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वीके अंश हैं। इस प्रकार स्वावर्त-जङ्गम सारा जगत् इन पाँच

भूतोंसे ही बना है तथा भ्रोक, घ्राण, रसना, त्वचा और नेत्र-संज्ञक इन्द्रियाँ भी इन्हींके परिणाम हैं।

भरद्वाजने पूछा—भगवन् ! आप कहते हैं कि समस्त स्वावर्त-जङ्गम इन पाँच महाभूतोंसे ही बने हैं, किन्तु स्वावर्तोंके शरीरोंमें तो ये पाँचों तत्त्व देले नहीं जाते। वृक्षोंको ही सोचिये—ये न सुनते हैं, न देखते हैं, न गन्ध और रसका ही अनुभव करते हैं और न उन्हें स्वयंका ही ज्ञान है। फिर वे पाचभौतिक कैसे कहे जा सकते हैं ? उनमें न तो द्रव्यत्व देखा जाता है, न अग्निका अंश है और न पृथ्वी या वायुका भाग ही देखा जाता है तथा आकाशका तो कोई प्रमाण ही नहीं है। इसलिये उन्हें भौतिक नहीं कहा जा सकता।

भृगुजी बोले—मुने ! वृक्ष पृथ्वि ठोस जान पड़ते हैं, तो भी उनमें आकाश अवश्य है। इसीसे उनमें नित्यप्रति फल-फूलादिकी उत्पत्ति सम्भव हो सकती है। उनके अंदर जो ऊष्मा है उसीसे उनके पत्ते, छाल, फल और फूल बुन्धलात्रे हैं तथा ये सब भ्रुमताते और भड़ जाते हैं, इससे उनमें स्वयं भी होना सिद्ध होता है। यह भी देखा जाता है कि बिजलीकी कड़क आदि भौषण शब्द होनेपर वृक्षोंके फल-फूल गिर जाते हैं। शब्दका घट्टण तो ध्वनेन्द्रियसे ही होता है। अतः सिद्ध होता है कि वृक्ष सुनते भी हैं। देखो, तता वृक्षको धारों ओरसे लपेटती ऊपरकी ओर चढ़ती है; बिना देले कित्तीको अपने जानेका मार्ग नहीं मिल सकता। इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी हैं। सुगन्ध और दुर्गन्धसे तथा भस्ति-भस्ति-को घुप देनेसे वृक्ष नीरोग होते हैं और उनमें फूल आ जाते हैं। इससे उनका सूचना भी सिद्ध होता है। वृक्षोंमें रस-नेन्द्रिय भी है; क्योंकि वे अपनी जड़से जल पीते हैं और कोई रोग होनेपर जड़में ओषधि ढालकर उनकी विकृतिता भी की जाती है। जिस प्रकार मनुष्य कमलनासक द्वारा मुँहसे जल खोंचते हैं उसी प्रकार वृक्ष वायुकी सहायतासे अपने पाद (जड़) द्वारा जल पीते हैं। इसीसे उन्हें 'पावप' कहा जाता है। वृक्षोंमें सुख-दुःखका भी ज्ञान देखा जाता है तथा वे काटनेपर फिर उग आते हैं, इससे सिद्ध होता है वे जीवभूत हैं, अबेतन नहीं हैं। ये अपनी जड़के द्वारा जो जल खोंचने हैं, उसे उनके अंदर रहनेवाले यामु और अग्नि पचाते हैं। इस प्रकार आहारका परिपाक होनेसे उनमें चिकनाहट आती है और वे बढ़ते हैं। जङ्गमोंके शरीरमें भी पाँच भूत रहते हैं, किन्तु उनके स्वरूपमें भेद रहता है। शरीरमें त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा और स्नायु—ये पाँच वस्तुएँ पृथ्वीमय हैं; तेज, क्रोध, चक्षु, ऊष्मा और जह्ररान्तल—ये पाँच अग्निमय हैं; श्रोत्र, घ्राण, मुख, हृदय और उदर—ये पाँच आकाशके अंश हैं; कर्ण, पित्त, स्वेद, चतयो और रश्मि—ये

पांच जलीय अंग हैं तथा प्राण, अपान, उदान, समान और ध्यान—ये पांच वायुके विकार हैं। प्राणके द्वारा मनुष्य एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाता है, ध्यानसे बलपूर्वक होनेवाले कार्य करता है, अपान शरीरमें अरसे नीचेकी ओर जाता है, समान हृदयमें स्थित है और उदानसे मनुष्य उच्छ्वास लेता तथा कण्ठ-तालुआदि स्थानसेदसे शब्दोच्चारण करता है। इस प्रकार ये पांच वायु प्रत्येक देहधारीसे मिश्र-मिश्र क्रियाएँ कराते हैं।

जीव भूमिके कारण ही अपनेमें गन्ध-गुणका अनुभव करता है, जलके कारण रसको जानता है, तेजोमय चक्षुके द्वारा रूपको देखता है और वायुमय त्वरुसे स्पर्शका अनुभव करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पृथ्वीके गुण माने गये हैं। इनमेंसे मैं गन्धके गुणोंका विस्तार बताता हूँ। इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, निर्हारी, संहत, स्निग्ध, रुक्ष और विगद भेदसे पार्थिव गन्ध नौ प्रकारका है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस—ये जलके गुण माने गये हैं। इनमेंसे रस-ज्ञानका विस्तार सुनो। उदारचेता ऋषियोंने रसके अनेकों भेद कहे हैं। उनमें मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, अम्ल और कटु—ये छः प्रकारके रस जलमय हैं। शब्द, स्पर्श और रूप—ये तीन गुण तेजके हैं। रूपोंका ज्ञान तेजसे होता है

और उनके अनेकों भेद हैं। ह्रस्व, दीर्घ, स्थूल, चौकोना, गोल, सफेद, काला, लाल, पीला, नीला, अरुण, कठोर, चिकना, श्रतक्षण, स्निग्ध, मृदु और दारुण—ये सोलह प्रकार रूपके हैं। शब्द और स्पर्श—ये दो गुण वायुके हैं। वायुका प्रधान गुण स्पर्श है और उसके अनेकों प्रकार हैं। उष्ण, शीत, सुखद, दुःखद, स्निग्ध, विशद, खुरदरा, मृदु, रुक्षा, हल्का, भारी और अधिक भारी—ये स्पर्शके बारह भेद हैं। आकाशका एकमात्र गुण शब्द ही है। वह कई प्रकारका है। प्रधानतया उसके सात भेद हैं—पडज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, ध्रुवत और निपाद। अपने व्यापकरूपसे तो शब्द सर्वत्र है, किन्तु विशेषरूपसे इसकी उपलब्धि नगाड़े आदिमें होती है। मृदङ्ग, नेरी, शङ्ख, मेघ और रथकी धरधराहट आदिमें जो कुछ शब्द सुना जाता है तथा और भी जड-श्रेतन आदिके द्वारा जितने प्रकारका शब्द होता है, वह इन सात भेदोंके ही अन्तर्गत है। इस प्रकार आकाशजनित शब्दके अनेकों भेद हैं और वह वायुके गुण स्पर्शसे मिलकर ही सुना जाता है। जल-अग्नि और वायु—ये तीन तत्त्व देहधारियोंमें सर्वदा जाग्रत् रहते हैं, ये ही शरीरके मूल हैं और प्राणोंमें ओतप्रोत होकर शरीरमें स्थित रहते हैं।

जीवकी नित्यता और सत्ताका वर्णन; चारों वर्णोंकी उत्पत्ति तथा उनके कर्म

भरद्वाजने पूछा—नगवन् ! मृत्युके समय जो गोदान किया जाता है उसका क्या स्वरूप है। समुर्षु पुरय यह समझकर कि यह गो परलोकमें मुझे तार देगो, उसे दान करता है। परन्तु वह तो दान करके मर जाता है, फिर वह गो कितने तारेगी? इसके सिवा गो और उसका दान करने और लेनेवाला—ये तीनों यहाँ नष्ट होते देखे जाते हैं। फिर इनका समागम कैसे होता होगा? इनमेंसे जो मरता है, उसे या तो पत्नी खा जाते हैं, या वह पर्वतसे गिरकर चूर-चूर हो जाता है अथवा आगमें जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी अवस्थामें उसका पुनः जीवित होना तो सम्भव ही कहाँ है? क्योंकि जो मर जाता है वह तो सदाके लिये ही चला जाता है।

भृगुजी बोले—भरद्वाज ! जीवका तथा उसके किये हुए दान या कर्मका कमी नाश नहीं होता। जीव तो उसी समय दूसरे शरीरमें चला जाता है, नाश तो केवल उसके इस शरीरका ही होता है।

भरद्वाजने पूछा—मुनिवर ! अब यह बतानेकी कृपा कीजिये कि देहधारियोंके शरीरोंमें यदि केवल अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल-तत्त्व ही विद्यमान हैं, तो उनमें

रहनेवाले जीवका क्या स्वरूप है? शरीरको चीर-फाड़कर देखनेसे तो उसमें कोई जीव उपलब्ध नहीं होता, ऐसी दशामें यदि पञ्चभौतिक देहको जीवसे रहित जड मान लिया जाय तो प्रश्न होता है कि शरीर अथवा मनमें पीडा होनेपर उसके दुःखका अनुभव कौन करता है? जीव किसीको कहां हृई बातोंको कानोंसे सुनता है, किन्तु मनमें व्यथता हों तो दोनों कान खुले होनेपर भी कोई बात नहीं सुनायी देती; इसलिये मनके अतिरिक्त किसी जीवकी सत्ता मानना व्यर्थ है। नेत्रके साथ मनका संयोग होनेपर ही कोई भी इस दृश्य प्रपञ्चको देखता है, मनके व्याकुल होनेपर तो वह देखकर भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार नादमें पड़ा हुआ प्राणी सम्पूर्ण इन्द्रियोंके रहते हुए भी न देखता है, न सूँघता है, न सुनता है और न बोलता ही है। स्पर्श और रसका भी उसे अनुभव नहीं होता। अतः जिज्ञासा होती है कि इस शरीरमें कौन हर्ष और श्रेय करता है? कितने शोक एवं उद्वेग होता है? इच्छा, ध्यान, द्वेष और बातचीत करनेवाला कौन है?

भृगुजीने कहा—मुने ! मन भी पञ्चभूतोंके ही अन्तर्गत है, शरीरमें उसको कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है। एकमात्र

अन्तरात्मा ही इस देहका संचालन करता है। वही रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्दका तथा दूसरे-दूसरे गुणोंका भी अनुभव करनेवाला है। वह पाँचों इन्द्रियोंके गुणोंकी धारण करनेवाले मनका द्रव्य है और वही इस पञ्चभौतिक देहके प्रत्येक अवयवमें व्याप्त होकर सुख-दुःखका अनुभव करता है। जब आत्माका शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं रहता तो इस देहकी सुख-दुःखका भाव नहीं होता। (इससे मनके अतिरिक्त उसके शारीरी आत्माकी सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है!) जब शरीरमें स्थित अग्निस्वरूप आत्मा इससे पृथक् हो जाता है, उस समय शरीरको रूप, स्पर्श तथा आगकी गर्मीका ज्ञान नहीं रहता और इसकी मृत्यु हो जाती है। आत्मा जब प्रकृतिके गुणोंसे युक्त होता है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं और उन्हीं गुणोंसे जब वह मुक्त हो जाता है तो परमात्मा कहलाता है। क्षेत्रज्ञको तुम आत्मा ही समझो। वह कमलके पत्तेपर पड़े हुए जल-बिन्दुकी तरह इस शरीरमें रहकर भी इससे पृथक् ही है। उसके ज्ञानसे सम्पूर्ण जगत्का कल्याण होता है। वही सबसे चेष्टा करता और करता है। देहके नष्ट हो जानेपर भी जीवका नाश नहीं होता। जो जीवकी मृत्यु यत्नाते हैं, वे भ्रामाणी हैं और उनका वह कथन मिथ्या है। जीव तो मृत देहका त्याग करके दूसरे शरीरमें चला जाता है। शरीरका नाश ही मृत्यु है।

इस प्रकार आत्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर छिपा हुआ है। अविद्यारसे आच्छादित होनेके कारण वह प्रकाशमें नहीं आता। तत्त्वदर्शी महात्मा ही अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धिसे उसका साक्षात्कार करते हैं। जो विद्वान् परिमित आहार करके रातके पहले और पिछले पहरमें सदा ध्यानयोगका अभ्यास करता है, वह चित्त शुद्ध होनेपर अपने अन्तःकरणमें ही उस आत्माका दर्शन कर लेता है। अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर उसका शमशानुम कर्मोंसे सम्बन्ध छूट जाता है और वह प्रसन्नात्मा पुण्य आत्मस्वरूपमें स्थित होकर अनन्त आनन्दका अनुभव करता है।

ब्रह्माज्ञानसे सृष्टिके प्रारम्भमें अपने तेजसे सूर्य और अग्निके समान प्रकाशित होनेवाले ब्राह्मणों—मरौचि आदि प्रजापतियोंकी ही उत्पत्ति कियी। फिर स्वर्ग-प्राप्तिके साधन-भूत सप्त, धर्म, तप, सनातन वेद, आचार और शौचके नियम बनाये। तबनन्तर देवता, राजव, गन्धर्व, वंश्य, असुर, महान् सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्योंकी उत्पत्ति कियी। मनुष्योंके चार वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रका विभाग कियी तथा इन्हीं प्रकार प्राणियोंमें जो और-और वर्ण हैं, उनको भी रचना की। ब्राह्मणोंका रंग श्वेत, क्षत्रियोंका साल, वैश्योंका पीला तथा शूद्रोंका काला बनाया।

भरद्वाजने पृथा—मूनिवर! हममेंसे काले-गोरे सभी मनुष्योंपर समानरूपसे काम, श्रेष्ठ, भय, सोन, शोक, चिन्ता, भूख और पकावटका प्रभाव पड़ता है। सभीके शरीरसे पसीना, मल, मूत्र, कफ, पित्त और रक्त निकलते हैं। ऐसी बरामें रंगके द्वारा कौनसे वर्ण-विभाग किये जा सकता है? बृक्ष आदि स्थावरों तथा पशु-पक्षी आदि जङ्गल प्राणियोंमें असंख्य जातियाँ हैं; उनके रंग भी माना प्रकारके हैं; अतः उनके वर्णोंका निरचय कौनसे हो सकता है?

भृगुजीने कहा—पहले वर्णोंमें कोई अन्तर नहीं था। ब्रह्माज्ञानसे उत्पन्न होनेके कारण सारा संसार ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न कर्मोंके कारण उत्तम वर्णमें वे हो गये। जो अपने ब्राह्मणोचित धर्मका परिपालन करनेके विषयमोगमें प्रेमी बन गये, तोले और श्रेयो स्वभावके हो गये, साहसका काम पसंद करने लगे और इन कारणोंसे जिनके शरीरका रंग सात हो गया, वे ब्राह्मण 'शत्रिय' के नामसे प्रसिद्ध हुए। जिन्होंने गौओंकी सेवा ही अपनी वृत्ति बना ली, जो खेतोंसे श्रौचिका चलायके कारण पीले पड़ गये और अपने ब्राह्मण-धर्मको छोड़ बंदे, उन द्विजोंको 'वैश्य' कहा जाने लगा। जो शौच और सदाचारसे छूट होकर हिंसा और असत्यके प्रेमी हो गये और सोमवश सब तरहके काम करके श्रौचिका चलाते हुए काले पड़ गये, वे शूद्र कहलाये। इस प्रकार ये चार वर्ण हुए। जो ब्राह्मण वेदकी आज्ञाके अनुसार चलते और सदा ही वेद, यज्ञ तथा नियमोंकी धारण किये रहते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती। जो इस सृष्टिके परब्रह्मस्वरूप नहीं जानते, वे द्विज कहलानेके अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगोंकी माना प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। वे ज्ञान-विज्ञानसे हीन एवं स्वैच्छाचारी पिशाच, राक्षस, प्रेत तथा म्लेच्छ होते हैं। पीछेसे श्रुतियोंमें अपनी तपस्याके बलसे कुछ ऐसी प्रजा उत्पन्न की, जो वैदिक संस्कारोंसे सम्पन्न तथा अपने धर्म-कर्ममें दृढ़तापूर्वक बँटी रहनेवाली थी। किंतु जो आदिदेव ब्रह्मासे उत्पन्न हुई हैं, जिसकी जड़-मूल ब्रह्मागो ही हैं और जो अक्षय, अव्यय तथा धर्ममें तत्पर रहनेवाली हैं, वह सृष्टि मानसो कहलाती है।

भरद्वाजजीने पृथा—विप्रवर! अब मुझे यह बताइये कि कौन-सा कर्म करनेसे मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र होता है?

भृगुजीने कहा—जो जातकर्म आदि संस्कारोंसे सम्पन्न, पवित्र तथा वेदोंके स्वाध्यायमें संलग्न है, (यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन और दान-प्रतिद्व—इत) छः कर्मोंमें स्थित रहता है, शौच एवं सदाचारका पालन तथा यत्नसिद्ध अन्नका भोजन करता है, गुणके प्रति प्रेम

नियमोंका पालन करता है; जिसमें सत्य, दान, द्रोह न करना, सबके प्रति क्रोमन् भाव रखना, नज्जा, दया और तप आदि सद्गुण देखे जाते हैं, यह ब्राह्मण कहा गया है। जो युद्ध आदि कर्म करता और वेदोंके अध्ययनमें लगा रहता है, ब्राह्मणोंको दान देना और प्रजासे कर लेकर उसको रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। इसी प्रकार जो वैशाख्ययनसे सम्पन्न होकर व्यापार, पशु-भक्षण और खेतीके काम करता है तथा दान देना और पवित्र रहता है, यह वैश्य कहलाता है। किन्तु जो वैद और सदाचारका परिहारा करके सब कुछ खाता और सब तरहके काम करता है तथा सदा अपवित्र रहा करता है, यह गृह माना गया है।

यदि ये ब्राह्मणोंचित्त सत्यादि गुण गृहमें दिव्यायी हैं और ब्राह्मणमें न हों तो वह गृह गृह नहीं और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। हरणक उपायसे जोन और क्रोधको दवाना ही पवित्र ज्ञान और आत्मसंयम है। क्रोध तथा जोन मनुष्यके कल्याणमें सदा ही बाधा पहुँचानेकी उद्यत रहते हैं; अतः पूरी मन्त्रि लगाकर उनका दमन करना चाहिये। क्रोधसे

श्रीको, मातृवर्षमें तपको, मान-अपमानसे विद्याको और प्रसन्नसे अपनेको बँचावे। जिसके सभी कार्य कामनाओंके बन्धनमें रहित होते हैं तथा जिसने त्यागकी आगमें सब कुछ होन दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान् है। किसी भी प्राणीको हिंसा न करे, सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे, स्त्री-पुत्र आदिप्री समता एवं आसक्तिको त्याग कर बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंको ब्रह्ममें करे और उस स्थितिको प्राप्त करे, जो इहलोक और परलोकमें भी निर्मय तथा शोकरहित है। नित्य तप करे, मननशील होकर मन और इन्द्रियोंका संयम करे, आसक्तिके आश्रयभूत देह-मेह आदिमें आसक्त न होकर परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छा रखे। मनको प्राणमें और प्राणको ब्रह्ममें स्थापित करे। वैराग्यसे ही निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त होता है, उसे पाकर किसी अनात्मपदार्थका चिन्तन नहीं होता। ब्राह्मण संसारसे परवैराग्य होनेपर परब्रह्म परमात्माको अनापास ही प्राप्त कर लेता है। सर्वदा शीघ्र और सदाचारका पालन करना तथा सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया रखना—यह ब्राह्मणका लक्षण है।

सत्यकी महिमा, असत्यके दोष, दान आदिके फल और आश्रमधर्मोंका वर्णन

भृगुजी कहते हैं—सुने! सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजाकी सृष्टि करता है, सत्यके ही आधारपर संसार टिका हुआ है और सत्यमें ही मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। असत्य अन्धकारका रूप है, यह नीच गिराता है। अज्ञानान्धकारसे घिरे हुए मनुष्य ज्ञानका प्रकाश नहीं देख पाते। जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश (ज्ञान) है और जो प्रकाश है वही सुख है। इसी प्रकार जो असत्य है वही अधर्म है, जो अधर्म है वही अन्धकार (अज्ञान) है और जो अन्धकार है वही दुःख है। संसारकी सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे भरी हुई है, इसमें सुख जो है ही है, जो परिणाममें दुःख देनेवाले हैं। यह जानकर विद्वान् पुण्य कर्मों में नहीं पड़ते। प्रत्येक बुद्धिमान्का यह फलंघ्य है कि वह दुःखोंसे छुटकारा पानेका उद्योग करे।

असत्यसे तम (अज्ञान) को उत्पत्ति हुई है, तसोपस्त मनुष्य अधर्मके ही पाँछे चमते हैं, धर्मका अनुसरण नहीं करते; अतः जो क्रोध, लोभ, हिंसा और असत्य आदिके आच्छादित हैं, वे न तो इस लोकमें सुखी होते हैं और न परलोकमें ही सुख उठाते हैं। नाना प्रकारके रोग, व्याधि और तापमें संताप होने रहते हैं, मय और बन्धन आदिके बन्धन सहते हैं तथा भूष-प्यास और परिश्रमके कारण भी

कष्ट भोगते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आँधी, पानी, सर्दों और गरमि उत्पन्न हुए मय तथा शारीरिक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। बन्धु-बान्धवोंकी मृत्यु, धनके नाश और प्रेमीजनोंके बिछोहके कारण होनेवाले मानसिक शोकका भी शिकार होना पड़ता है। इसी प्रकार वे जरा और मृत्युके कारण भी बहुतसे दूसरे-दूसरे क्लेश भोगते रहते हैं।

भरद्वाजने पूछा—मुनिवर! दान, धर्म, तप, स्वाध्याय और अग्निहोत्रका क्या फल है?

भृगुजीने कहा—अग्निहोत्रसे पाप नष्ट होता है, स्वाध्यायसे उत्तम शान्ति मिलती है, दानसे भोगोंकी और तपसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

भरद्वाजने पूछा—ब्रह्माजीने जो चार आश्रम बनाये हैं, उनके अपने-अपने धर्म क्या हैं? यह बतानेकी कृपा कीजिये।

भृगुजीने कहा—जगत्का कल्याण करनेवाले भगवान् ब्रह्माजीने धर्मकी रक्षाके लिये पूर्वकालमें ही चार आश्रमोंका उपदेश किया था। उनमेंसे ब्राह्मणधर्मको पहला आश्रम कहते हैं, जिसमें गिण्यको गुरुके यहाँ रहकर वेदोंका स्वाध्याय करना पड़ता है। इसमें रहनेवाले ब्रह्मचारीकी बाहर-भीतरकी शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत और नियमोंके

पालनसे अपने मनकी यशमें रहना चाहिये। सुबह और शाम—दोनों समय संध्या, सूर्योपस्थान तथा अग्निहोत्रके द्वारा अग्निदेवकी उपासना करनी चाहिये। तन्त्रा और आत्मस्थकी त्याग करके प्रतिदिन गुरुको प्रणाम करे, वैद्योंका अध्ययन तथा उसके अर्थका अभ्यास करता रहे। इस प्रकारकी दिनचर्यासे अपने अन्तःकरणको पवित्र बनाये। सवेरे, शाम और दोपहर—तीनों यज्ञ स्नान करे। ब्रह्मचर्यका पालन तथा अग्नि और गुरुको सेवा करे, प्रतिदिन भिक्षा माँगकर लाये और वह सब गुरुको अर्पण कर दे। अपनी अन्तरात्माको भी गुरुके चरणोंमें निछावर किये रहे। गुरुजी जो कुछ कहें, जिसके लिये संकेत करें और जिस कामके निमित्त स्पष्ट आज्ञा दें, उसके निरपेक्ष अवतरण न करे। इस प्रकार गुरुको प्रसन्न करके उनकी कृपासे स्वाध्यायका अवसर मिलनेपर वेदाध्ययनमें प्रवृत्त होना चाहिये। इस विषयमें एक श्लोक है (जिसका भाव इस प्रकार है—) 'जो द्विज गुरुकी आराधना करके वैद्योंका ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अन्तमें स्वर्गकी प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है।'

'गार्हस्थ्य' को दूसरा आश्रम बतलाया जाता है। अब हम उसके द्वारा पालन करने योग्य आचरणोंकी व्याख्या करते हैं। जब सदाचारका पालन करनेवाला ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुलमें रहनेकी अवधि पूरी कर ले और समावर्तन संस्कारके पश्चात् स्नातक हो जाय, उस समय यदि उसे पत्नीके साथ रहकर धर्मका आचरण करने तथा पुत्रादिरूप फल पानेकी इच्छा हो तो उसके लिये गृहस्थाश्रमसे प्रवेशका विधान है; क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनोंकी प्राप्ति होती है। इसलिये त्रिवर्ण-साधनको इच्छासे गृहस्थको उत्तम कर्मके द्वारा धन-संग्रह करना चाहिये और उसीके द्वारा अपनी गृहस्थीका निर्वाह करना चाहिये। गृहस्थ-आश्रम सभी आश्रमोंका मूल कहलाता है। गुरुकुलमें वास करनेवाले ब्रह्मचारी, धनमें रहकर संकल्पके अनुसार धन, नियम तथा धर्मोंका पालन करनेवाले वानप्रस्थी और सब कुछ त्यागकर विचरनेवाले संन्यासीको भी गृहस्थाश्रमसे ही भिक्षा आदिकी प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह कि अन्य सब आश्रम-वासियोंका निर्वाह गृहस्थाश्रमसे ही होता है। गृहस्थद्वारा किये जानेवाले अतिथि-सत्कारके विषयमें एक श्लोक है (जिसका भावार्थ इस प्रकार है—) 'जिस गृहस्थके दरवाजेसे कोई अतिथि भिक्षा न पानेके कारण निराश होकर लौट जाता है, वह उस गृहस्थको तो अपना पाप दे डालता है और स्वयं उसका पुण्य लेकर भ्रष्टा जाता है।'

इसके सिवा, गृहस्थाश्रममें रहकर यत्न करनेसे देवता, थाइ करनेसे पितर, शास्त्रोंके अध्ययन, अभ्यास और धारणने श्रेय तथा संतान उत्पन्न करनेसे प्रजापति प्राप्त होते हैं। गृहस्थके कर्तव्यके विषयमें दो श्लोक और हैं, (जिसका सारांश इस प्रकार है—) 'घाणी ऐसी बोलनी चाहिये, जिसमें सब प्राणियोंके प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानोंकी भीठी लगे। दूसरोंको पीड़ा देना, मारना या कट्टपचन सुनाना अच्छा नहीं है। किसीका अपमान करना, अहंकार रखना और दोग दिखाना—इन बातोंकी कड़ी निन्दा की गयी है। किसी भी जीवकी हिंसा न करना, सत्य बोलना और मनमें-श्रेय न होने देना—ये सभी आश्रमवासियोंके लिये उपयोगी तप हैं। जिस पुरुषको गृहस्थाश्रममें सदा धर्म, अर्थ और कामके गुणोंकी सिद्धि होती रहती है, वह इस लोकमें मुक्तका अनुभव करके अन्तमें शिष्ट पुरुषोंकी गतिकी प्राप्त करता है।'

तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। इसमें रहनेवाले मनुष्य धर्मका अनुसरण और तपका अनुष्ठान करते हुए पवित्र तीर्थोंमें, नदियोंके किनारे, झरनोंके आस-पास तथा भृगु, भंसे, वृश्चर, बनसे हाथी और सिंह-व्याघ्र आदि जन्तुओंसे भरे हुए एकान्त वनोंमें बिचरते रहते हैं। गृहस्थोंके उपयोगमें आने योग्य सुन्दर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विषय-भोगोंका परित्याग करके वे शंखली ओषध, फल, मूल तथा पत्तोंका आहार करते हैं, वह भी बहुत थोड़ी मात्रामें और नियमानुसार एक ही बार खाकर रहते हैं। नियत स्थानपर ही आसन बिछाकर बैठते हैं। जमीन, पत्थर, रेत, कंकरीली मिट्टी, बालू अथवा राखपर सोते हैं। कास या बुखारके रस्सी, मृगचर्म अथवा पेड़ोंकी छालसे अपना शरीर ढँकते हैं। सिरके बाल, शङ्खी-मूँछ, नल और रोम बढ़ाये रहते हैं। नियत समयपर स्नान, यज्ञिपरिवेद तथा अग्निहोत्र आदि कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं। सवेरे हवन-भूजनके लिये सपिण्ड, कुरा और फूल आदिका संग्रह करके आश्रमको झाड़-गुहार लेनेके पश्चात् विभाम करते हैं। सर्वा, गर्मा, घर्षा और हवाका वेग सहते-सहते उनके शरीरके धमड़े फट जाते हैं। माना प्रकारके नियमोंका अनुष्ठान करते रहनेसे उनके रक्त और मांस मूल जाते हैं, शरीरकी जगह घामसे ढँकी हुई हड्डियोंका ढाँचायत्न रह जाता है; फिर भी धर्म धारण करनेके अत्यन्त साहसके कारण शरीरको चलाये जाता है। जो पुरुष नियमके साथ रहकर ब्रह्मचर्यव्रत आचरणमें सदा ही रहता है उसका अनुष्ठान करता है, वह अग्निजने ज्ञाति अपने शीश्योंको दण्ड करके कुलमें लोकोकी प्राप्ति कर लेता है।

अब संन्यासियोंका आचरण बतलाया जाता है। संन्यास (चौथा आश्रम है—इस) में प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका त्याग करके विषयासक्तिके बन्धनको तोड़कर घरसे निकल जाते हैं। ढेले, पत्थर और सोनेको समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और कामके सेवनमें अपनी बुद्धि नहीं फँसाते। शत्रु, मित्र तथा उदासीन—सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और उद्भुज प्राणियोंके प्रति मन, वाणी अथवा कर्मसे भी कभी द्रोह नहीं करते। कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते। उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचरते रहें और रातमें ठहरनेके लिये पर्वतकी गुफा, नदीका किनारा, वृक्षकी जड़, देवमन्दिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानोंमें चले जाया करें। नगरमें पाँच रात और गाँवोंमें एक रातसे अधिक न रहें। प्राण-धारण करनेके लिये गाँव या नगरमें प्रवेश करके अपने विशुद्ध धर्मोंका पालन करनेवाले द्विजातियोंके घरोंपर जाकर खड़े हो जायें। बिना माँगे ही पात्रमें जितनी भिक्षा आ जाय, उतनी ही स्वीकार करें।

काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा, अभिमान तथा हिंसा आदिसे दूर रहें।

इस विषयमें कुछ श्लोक हैं, (जिनके भाव इस प्रकार हैं—) 'जो मुनि सब प्राणियोंको अभयदान देकर विचरता रहता है, उसे कहीं किसी भी जीवसे भय नहीं होता। जो अग्निहोत्रको अपने शरीरमें आरोपित करके शरीरस्थित अग्निके उद्देश्यसे मुखमें भिक्षाप्राप्त हविव्यका होम करता है, वह अग्निहोत्रियोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंमें जाता है। जो बुद्धिको संकल्परहित करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त विधिके अनुसार संन्यासके नियमोंका पालन करता है, वह परम शान्त ज्योतिर्मय ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।' इस प्रकार वेदमें प्रतिपादित आश्रम-धर्मका मने संक्षेपसे वर्णन किया है। जो मनुष्य लोकके धर्म-अधर्मको जानता है, वह बुद्धिमान् है।

भीष्मजी कहते हैं—महावि भृगुजीके इस प्रकार उपदेश देनेपर परम धर्मात्मा भरद्वाजने विस्मयविभ्रम होकर उनका पूजन किया।

आचारकी विधि और अध्यात्मज्ञानका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी! अब मैं आपके मुखसे आचारकी विधि सुनना चाहता हूँ; क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्मजीने कहा—मनुष्यको सड़कपर, गौओंके बीचमें और अन्नके पीदोंसे हरेभरे खेतमें मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। आवश्यक शौच आदिसे निवृत्त होकर कुल्ला करनेके पश्चात् नदीमें स्नान करना चाहिये। इसके बाद (संध्योपासना और) देवता-पितरोंका तर्पण करना आवश्यक है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करे। सूर्योदयके समय कमी न सोये। सायं और प्रातः—दोनों समय संध्या करके गायत्रीका जप करे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुँह—इन पाँच अङ्गोंको धोकर पूर्वकी ओर मुँह कर भोजन करने बैठे। भोजनके समय मौन रहे। भोजनके लिये परोसे हुए अन्नकी निन्दा न करे, उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेमसे भोजन करे। भोजनके बाद हाथ धोकर उठे। रातको भीगे पैर न सोये। देववि नारदजी इसीको आचार कहते हैं। यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बैल, देवता, गोशाला, चौराहा, ब्राह्मण, धार्मिक मनुष्य तथा मन्दिरको सदा अपने दाहिने करके चले। घरमें अतिथियों, सेवकों और कुटुम्बजनोंके लिये भी एक-सा ही भोजन बनवाना उत्तम माना गया है। शास्त्रमें मनुष्योंके लिये सबेरे और शाम—दो ही वक्त भोजन करनेका विधान

है। बीचमें नहीं खाना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्य उपवासी माना जाता है। होमके समय अग्निमें हवन और केवल ऋतु-स्नानके समय स्त्रीके साथ समागम करते हुए एक-पत्नीव्रत धारण करनेवाला बुद्धिमान् गृहस्थ भी ब्राह्मचारी ही माना जाता है। ब्राह्मणके भोजनसे बचा हुआ (यज्ञशिष्ट) अन्न अमृतके तुल्य है; ऐसे अन्नको भोजन करनेवाले सत्पुरुष सत्यस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं। जो मिट्टीके ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता और दाँतोंसे नख चबाया करता है तथा जो सदा जूठे हाथ और जूठे मुँह रहा करता है, उसको बड़ी आयु नहीं मिलती।

मनुष्य स्वदेशमें हो या परदेशमें, अपने पास आये हुए अतिथिको भूखा न रहने दे। जीविकाके लिये किये हुए कार्यसे जो धन आदि प्राप्त हो, उसे माता-पिता आदि गुरुजनोंको निवेदन कर दे। गुरुजनोंके आनेपर उन्हें स्वयं आसन देकर बैठाने और सदा उनको प्रणाम किया करे। गुरुओंका सत्कार करनेसे आयु, यश और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। उदयके समय सूर्यको न देखे, नंगी हुई परायी स्त्रीकी ओर दृष्टि न डाले और सदा धर्मानुसार ऋतुकालके समय एकान्त स्थानमें पत्नीके साथ समागम करे। परिचित मनुष्यसे जब-जब भेंट हो, उसका कुशल-समाचार पूछे।

प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्याके समय ब्राह्मणोंको प्रणाम करे—एसी शास्त्रकी आज्ञा है। देवमन्दिरमें, गौओंके शंखमें, ब्राह्मणोंके यज्ञादि कर्मोंमें, शास्त्रोंके व्याख्यायकालमें और भोजन करते समय बाह्यते हावसे काम ले। प्रातः और संध्याके समय ब्राह्मणोंका विधिग्रन्थ पुरन करे। हजामतके समय, छीक अनेपर, स्नान और भोजनके समय तथा रग्गावस्थामें सबको चाहिये कि ब्राह्मणोंको प्रणाम करे; इनसे आयु बढ़तो है। भ्रूयोंकी और मूत्र करके वेगाव न करे, अर्थात् विच्छापर वृष्टि न डाले, स्त्रीके साथ एक आगनपर सोना और एक चामीमें भोजन करना छोड़ दे। अनेसे बड़ोंको नाम संकर वा 'सु' कहकर न पुकारे। अनेसे छोटे वा मन्वयस्क पुरयोंका नाम सेनेसे बोध नहीं लगता।

पारिवीका हृदय ही उनके पार्योंको बना देता है; जो सोण जान-बूझकर किये हुए पापको महापुरयोंमें छिपाने हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। जो मूर्ख हैं, वे ही जान-बूझकर किये हुए पापको छिपाने हैं। यद्यपि मनुष्य उन पापको नहीं देखते, तो भी देखता तो देखते ही हैं। पार्य मनुष्यका छिपाया हुआ पाप उसे पुनः पापमें ही लगाना है और धर्मत्याका धर्मनः गुण रक्षा हुआ धर्म उसे पुनः धर्ममें ही प्रवृत्त करना है। मूर्ख मनुष्य पाप करके उसे भूल जाता है, किन्तु वह पाप उसके पीछे ही लगा रहता है। किन्ती कामनाकी पूर्तिके लिये जो धन संघिन करके रक्षा होता है, उसको अपने उपयोगमें लक्ष्य करतेसे बड़ा बनेम होता है। मगर समन-कारयोग ऐसे धनकी प्रसांवा नहीं करने; क्योंकि सोन राहू नहीं देखती (कामना पूरी ही वा अधूरी, समयपर मृत्यु हो ही जाती है)। मनोनी पुरयोंका कहना है कि सभी प्राणियोंका धर्म धार्मिक है अर्थात् मनसे किया हुआ धर्म ही बाल्मविक धर्म है; अतः मनसे ममस्त जीवोंका कल्याण सोचना रहे। कथम वेदोपन विधिका सहारा संकर अकेले ही धर्मका आचरण करना चाहिये। इसमें दूधरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है। धर्म ही मनुष्योंकी धीन है, धर्मही स्वर्गके देवनामीका अमृत है। धर्मरिवा मनुष्य मरनेके परधान धर्मके ही बन्ने सेवा शुभ भोगने हैं।

मुधिष्टिरने पृष्ठा—विनामह ! शास्त्रमें पुरयके लिये जो अध्यात्मज्ञानका ध्यमन बनाया जाता है, वह अध्यात्म क्या है? उसका स्वरूप क्या है? यह चराचर जगत् किससे उत्पन्न हुआ है और प्रलयके समय किममें सीन होता है?—ये बाने मुने बनानेकी बुजा करे।

मौष्मजीने कहा—कृत्सीनन्द ! तृप मुझमें त्रिप अध्यात्मज्ञानके विषयमें पूछ रहे हो, उसकी व्याख्या करता हूँ। यह अथपत्त कल्याणकारी और सुखस्वरूप है। आचार्यो-

ने मृष्टि और प्रलयकी व्याख्याके साथ ही अध्यात्मज्ञानका वर्णन किया है। उसे जान सेनेसे मनुष्यों प्रयत्ना और गुणकी प्राप्ति होती है। यह मधुपुनं मुत्रोंके लिये त्रिकारणी है, जो उसे जानता है, उसकी मधुपुनं कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि—ये पांच महाभूत मधुपुनं प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं। जेमें सहूरे मधुपुनं प्रकट होकर फिर उर्धामें सीन हो जाती हैं, उर्धामें प्रकार ये पांच महाभूत भी त्रिम प्रानन्दस्वरूप परमात्माने उत्पन्न हुए हैं, पुनः उर्धामें सीन हो जाते हैं। मध्य, धीत्र और मधुपुनं छिद्र आचार्यके कार्य हैं; लग्नं, रक्षा और चेष्टा—ये तीन वायुके; दय, नेत्र और परिगाह—ये तेजके; रम, त्रिष्ठा और बनेद जयके तथा मध्य, भासिका और शरीर पृथ्वीके गुण हैं। इस प्रकार इस देहमें पांच महाभूत तथा छटा मन हैं। इन्द्रियाँ और मन—ये जीवोंकी विषयोंका ज्ञान कराने हैं। इन छःके अनिरीरन मानवी बुद्धि और आश्री श्रेयस है। इन्द्रियाँ विषयोंको प्रहृण करती है, मन संकल्प-विकल्प करता है और बुद्धि उनका टोक-टोक निरन्धय करती है। श्रेयस (आत्मा) गाश्योंकी धीन स्थित रहता है। यह शरीरके भीतर और बाहर सर्वत्र स्थान है। पुरयको अपनी इन्द्रियोंकी परीक्षा करके उनकी पूर्ण ज्ञानकारी स्थानी चाहिये; क्योंकि मत्स्य, रज और तम—ये तीनों गुण इन्द्रियोंका ही व्याप्य संकर रहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धिके बन्ने जीवोंके आशापतकी अध्यात्म ज्ञानकर धीने-धीरे उगार विचार करने रहनेसे परम गांनि पा जाता है। यह चराचर जगत् बुद्धिके उदय होनेपर ही उत्पन्न होता और इसके लयके साथ ही सीन हो जाता है; इत्यर्थसे सबको बुद्धिमय कहा गया है।

बुद्धि ही त्रिपके द्वारा देखनी है, उसे नेत्र कहते हैं; त्रिपसे मुनतो है, वह धीत्र कहमाना है और त्रिपसे मूष्मी है, उसे प्राण कहा गया है। वही त्रिष्ठाके द्वारा रक्षा और रक्षाओं लग्नंका अनुभव करती है। इस प्रकार बुद्धि ही त्रिकारकी प्राप्ति होकर जाना क्योंकि विषयोंको प्रहृण करती है। वह त्रिम द्वारा किसी विषयकी बात जानती है, मन उर्धामें आचार धारण कर सीनता है। मित्र-मित्र विषयोंको प्रहृण करनेके लिये जो बुद्धिके पांच अष्टिष्ठान हैं, उर्ध्वीको पांच इन्द्रियाँ कहते हैं। बुद्धिमान् पुरयोंको चाहिये कि वे इन्द्रियोंकी बाधमें रहनें। मत्स्य, रज और तम—ये तीन गुण मदा ही प्राणियोंमें स्थित रहते हैं और इनके कारण उनमें सारिखकी, राजसी तथा तामसी तीन तरहकी बुद्धि भी दलनेमें आती है। इनमें मत्स्यगुनमें मूष्प, रजोगुनमें दुष्प और तमो-गुनमें मोह उत्पन्न होता है।

अब संन्यासियोंका आचरण बतलाया जाता है। संन्यास (चौथा आश्रम है—इस) में प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्नि-होत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका त्याग करके विषयासक्तिके बन्धनको तोड़कर घरसे निकल जाते हैं। ढेले, पत्थर और सोनेको समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और कामके सेवनमें अपनी बुद्धि नहीं फँसाते। शत्रु, मित्र तथा उदासीन—सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। स्यावर, अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज प्राणियोंके प्रति मन, चाणी अथवा कर्मसे भी कभी द्रोह नहीं करते। कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते। उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचरते रहें और रातमें ठहरनेके लिये पर्वतकी गुफा, नदीका किनारा, वृक्षकी जड़, देवमन्दिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानोंमें चले जाया करें। नगरमें पाँच रात और गाँवोंमें एक रातसे अधिक न रहें। प्राण-धारण करनेके लिये गाँव या नगरमें प्रवेश करके अपने विशुद्ध धर्मोंका पालन करनेवाले द्विजातियोंके घरोंपर जाकर खड़े हो जायें। बिना माँगे ही पात्रमें जितनी भिक्षा आ जाय, उतनी ही स्वीकार करें।

काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा, अभिमान तथा हिंसा आदिसे दूर रहें।

इस विषयमें कुछ श्लोक हैं, (जिनके भाव इस प्रकार हैं—) 'जो मुनि सब प्राणियोंको अभयदान देकर विचरता रहता है, उसे कहीं किसी भी जीवसे भय नहीं होता। जो अग्निहोत्रको अपने शरीरमें आरोपित करके शरीरस्थित अग्निके उद्देश्यसे मुखमें भिक्षाप्राप्त हविष्यका होम करता है, वह अग्निहोत्रियोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंमें जाता है। जो बुद्धिको संकल्परहित करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त विधिसे अनुसार संन्यासके नियमोंका पालन करता है, वह परम शान्त ज्योतिर्मय ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।' इस प्रकार वेदमें प्रतिपादित आश्रम-धर्मका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया है। जो मनुष्य लोकके धर्म-अधर्मको जानता है, वह बुद्धिमान् है।

भीष्मजी कहते हैं—महाविष्णु भृगुजीके इस प्रकार उपदेश देनेपर परम धर्मात्मा भरद्वाजने विस्मयविभ्रम होकर उनका पूजन किया।



आचारकी विधि और अध्यात्मज्ञानका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी! अब मैं आपके मुखसे आचारकी विधि सुनना चाहता हूँ; क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं।

भीष्मजीने कहा—मनुष्यको सड़कपर, गीलोंके बीचमें और अन्नके पीदोसे हरेभरे खेतमें मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। आवश्यक शौच आदिसे निवृत्त होकर फुल्ला करनेके पश्चात् नदीमें स्नान करना चाहिये। इसके बाद (संध्योपासना और) देवता-पितरोंका तर्पण करना आवश्यक है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करे। सूर्योदयके समय कभी न सोये। सायं और प्रातः—दोनों समय संध्या करके गायत्रीका जप करे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुँह—इन पाँच अङ्गोंको धोकर पूर्वकी ओर मुँह कर भोजन करने बँठे। भोजनके समय मौन रहे। भोजनके लिये परोसे हुए अन्नकी निन्दा न करे, उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेमसे भोजन करे। भोजनके बाद हाथ धोकर उठे। रातको भीगे पैर न सोये। देवायि नारदजी इसीको आचार कहते हैं। यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बँल, देवता, गोशाला, चौराहा, ब्राह्मण, धार्मिक मनुष्य तथा मन्दिरको सदा अपने दाहिने करके चले। घरमें अतिथियों, सेवकों और कुटुम्बीजनोंके लिये भी एक-सा ही भोजन बनवाना उत्तम माना गया है। शास्त्रमें मनुष्योंके लिये सबेरे और शाम—दो ही वक़्त भोजन करनेका विधान

है। बीचमें नहीं खाना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्य उपवासी माना जाता है। होमके समय अग्निमें हवन और केवल ऋतु-स्नानके समय स्त्रीके साथ समागम करते हुए एक-पत्नीव्रत धारण करनेवाला बुद्धिमान् गृहस्थ भी ब्रह्म-चारी ही माना जाता है। ब्राह्मणके भोजनसे बचा हुआ (यज्ञशिष्ट) अन्न अमृतके तुल्य है; ऐसे अन्नको भोजन करनेवाले सत्पुरुष सत्यस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं। जो मिट्टीके ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता और दाँतोंसे नख चबाया करता है तथा जो सदा जूठे हाथ और जूठे मुँह रहा करता है, उसको बड़ी आयु नहीं मिलती।

मनुष्य स्वदेशमें हो या परदेशमें, अपने पास आये हुए अतिथिको भूखा न रहने दे। जीविकाके लिये किये हुए कार्यसे जो धन आदि प्राप्त हो, उसे माता-पिता आदि गुरुजनोंको निवेदन कर दे। गुरुजनोंके आनेपर उन्हें स्वयं आसन देकर बँठावे और सदा उनको प्रणाम किया करे। गुरुओंका सत्कार करनेसे आयु, यश और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। उदयके समय सूर्यको न देखे, नंगी हुई परायी स्त्रीकी ओर दृष्टि न डाले और सदा धर्मानुसार ऋतुकालके समय एकान्त स्थानमें पत्नीके साथ समागम करे। परिचित मनुष्यसे जब-जब भेंट हो, उसका कुशल-समाचार पूछे।

प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्याके समय ब्राह्मणोंकी प्रणाम करे—एसी शास्त्रकी आज्ञा है। देवमन्दिरमें, गौओंके भोवमें, ब्राह्मणोंके यज्ञादि कर्मोंमें, शास्त्रोंके स्वाध्यायकालमें और भोजन करते समय दाहिने हाथसे काम ले। प्रातः और संध्याके समय ब्राह्मणोंका विधियत् पूजन करे। हजामतके समय, छोक आनेपर, स्नान और भोजनके समय तथा रणनावस्यमें सबको चाहिये कि ब्राह्मणोंकी प्रणाम करे; इससे आयु बढ़ती है। सूर्यकी ओर मुंह करके पेशाब न करे, अपनी विष्टापर दृष्टि न डाले, स्त्रीके साथ एक आसनपर सोना और एक थालीमें भोजन करना छोड़ दे। अपनेसे बड़ोंको नाम लेकर या 'तू' कहकर न पुकारे। अपनेसे छोटे या समवयस्क पुरुषोंका नाम लेनेसे दोष नहीं लगता।

पापियोंका हृदय हो उनके पापोंको बता देता है; जो लोग जान-बूझकर किये हुए पापको महापुरुषोंसे छिपाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। जो मूर्ख हैं, वे ही जान-बूझकर किये हुए पापको छिपाते हैं। यद्यपि मनुष्य उस पापको नहीं देखते, तो भी देवता तो देखते ही हैं। पापी मनुष्यका छिपाया हुआ पाप उसे पुनः पापमें ही लगता है और धर्मात्माका धर्मतः गुप्त रखला हुआ धर्म उसे पुनः धर्ममें ही प्रवृत्त करता है। मूर्ख मनुष्य पाप करके उसे भूल जाता है, किंतु वह पाप उसके पीछे ही लगा रहता है। किसी कामनाकी पूर्तिके लिये जो धन संचित करके रखला होता है, उसको अपने उपभोगमें खर्च करनेसे बड़ा बलेश होता है। मगर समन्वयदारलोग ऐसे धनको प्रशंसा नहीं करते; क्योंकि मोत राह नहीं देखती (कामना पूरी हो या अधूरी, समथपर मृत्यु ही हो जाती है)। मनीषी पुरुषोंका कहना है कि सभी प्राणियोंका धर्म मानसिक है अर्थात् मनसे किया हुआ धर्म ही वास्तविक धर्म है; अतः मनसे समस्त जीवोंका कल्याण सोचता रहे। केवल वेदोक्त विधिका सहारा लेकर अकेले ही धर्मका आचरण करना चाहिये। इसमें दूसरोंकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है। धर्म ही मनुष्योंकी योनि है, धर्मही स्वर्गके देवताओंका अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरनेके परचात् धर्मके ही बनसे सदा सुख भोगते हैं।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! शास्त्रमें पुरुषके लिये जो अध्यात्मज्ञानका चिन्तन बताया जाता है, वह अध्यात्म क्या है? उसका स्वरूप कंसा है? यह चराचर जगत् किससे उत्पन्न हुआ है और प्रलयके समय किसमें लीन होता है?—ये बातें मुझे बतानेकी कृपा करें।

भीष्मजीने कहा—कुन्तीनन्दन ! तुम मुझसे जिस अध्यात्मज्ञानके विषयमें पूछ रहे हो, उसकी व्याख्या करता हूँ। वह अत्यन्त कल्याणकारी और सुखस्वरूप है। आचार्यों-

ने सृष्टि और प्रलयकी व्याख्याके साथ ही अध्यात्मज्ञानका वर्णन किया है। उसे जान लेनेसे मनुष्यको प्रसन्नता और सुखकी प्राप्ति होती है। वह सम्पूर्ण मूर्तोंके लिये हितकारो है, जो उसे जानता है, उसको सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि—ये पांच महाभूत सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं। जैसे लहरें समुद्रसे प्रकट होकर फिर उसीमें लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये पांच महाभूत भी जिस आनन्दस्वरूप परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं, पुनः उसीमें लीन हो जाते हैं। शब्द, श्रोत्र और सम्पूर्ण छिद्र आकाशके कार्य हैं; स्पर्श, त्वचा और चेष्टा—ये तीन वामुके; रस, नेत्र और परिपक्व—ये तेजके; रस, जिह्वा और बलेद जलके तथा गन्ध, नासिका और शरीर पृथ्वीके गुण हैं। इस प्रकार इस देहमें पांच महाभूत तथा छठा मन हैं। इन्द्रियों और मन—ये जीवोंकी विषयोंका ज्ञान कराते हैं। इन छके अतिरिक्त सातवाँ बुद्धि और आठवाँ क्षेत्रज्ञ हैं। इन्द्रियाँ विषयोंको ग्रहण करती हैं, मन संकल्प-विकल्प करता है और बुद्धि उसका ठीक-ठीक निरचय करता है। क्षेत्रज्ञ (आत्मा) साक्षीकी भाँति स्थित रहता है। यह शरीरके भीतर और बाहर सर्वव्याप्य है। पुरुषको अपनी इन्द्रियोंकी परीक्षा करके उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिये; क्योंकि सत्य, रज और तम—ये तीनों गुण इन्द्रियोंका ही आश्रय लेकर रहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धिके बलसे जीवोंके आवागमनको अवस्था जानकर धीरे-धीरे उसपर विचार करते रहनेसे परम शान्ति पा जाता है। यह चराचर जगत् बुद्धिके उदय होनेपर ही उत्पन्न होता और उसके तपके साथ ही लीन हो जाता है; इसलिये सबको बुद्धिमय कहा गया है।

बुद्धि ही जिसके द्वारा देखती है, उसे नेत्र कहते हैं; जिससे सुनती है, वह श्रोत्र कहलाता है और जिससे सूँघती है, उसे प्राण कहा गया है। वही जिह्वाके द्वारा रसका और त्वचासे स्पर्शका अनुभव करती है। इस प्रकार बुद्धि ही विकारको प्राप्त होकर माना रूपोंसे विषयोंको ग्रहण करती है। वह जिस द्वारसे किसी विषयको पाना चाहती है, मन उसीका आकार धारण कर लेता है। भिन्न-भिन्न विषयोंको ग्रहण करनेके लिये जो बुद्धिके पाँच अधिष्ठान हैं, उन्हींको पाँच इन्द्रियाँ कहते हैं। बुद्धिमान् पुरुषोंको चाहिये कि वे इन्द्रियोंको काबूमें रखें। सत्य, रज और तम—ये तीन गुण सदा ही प्राणियोंमें स्थित रहते हैं और इनके कारण उनमें सात्त्विकी, राजसी तथा तामसी तीन तरहकी बुद्धि भी देखनेमें आती है। इनमें सत्त्वगुणसे सुख, रजोगुणसे दुःख और तमो-गुणसे मोह उत्पन्न होता है।

जब शरीर या मनमें किसी प्रकारसे भी प्रसन्नताका भाव हो, हर्ष बढ़ता हो, सुख और शान्तिका अनुभव हो रहा हो तो सत्त्वगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये। जिस समय किसी कारणसे या बिना कारण ही असंतोष, शोक, संताप, लोभ और असहनशीलताके भाव दिखायी दें तो उन्हें रजोगुणके चिह्न जानने चाहिये। इसी प्रकार अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, निद्रा और आलस्य घेरते हैं तो उन्हें तमोगुणके विविध रूप समझे। बुद्धि और आत्मा—दोनों सूक्ष्म तत्त्व हैं, तथापि इनमें जो अन्तर है, उसपर दृष्टि डालो। इनमेंसे बुद्धि तो गुणोंकी सृष्टि करती है और आत्मा इन सब बातोंसे अलग रहता है। जैसे गूलरका फल और उसके भीतर रहनेवाले कीड़े—ये दोनों एक साथ रहते हुए भी एक-दूसरेसे भिन्न हैं, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर मिले हुए प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें अलग-अलग हैं। सत्त्व आवि गुण जड़ होनेके कारण आत्माको नहीं जानते, किंतु आत्मा चेतन है, इसलिये गुणोंको जानता है। जैसे घड़ेमें रखवा हुआ दीपक घड़ेके छेदोंसे अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओंका ज्ञान कराता है, उसी प्रकार परमात्मा शरीरके भीतर स्थित होकर चेष्टा और ज्ञानसे शून्य इन्द्रियों तथा मन-बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोंका ज्ञान कराता है। बुद्धि गुणोंको उत्पन्न करती है और आत्मा केवल देखता है। बुद्धि और आत्माका यह सम्बन्ध अनादि है। जो संसारी कामोंसे मन हटाकर केवल

आत्मामें ही अनुराग रखता और आत्मतत्त्वका ही मनन करता है, वह सब प्राणियोंका आत्मा हो जाता है और इस साधनासे उसको बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है।

जैसे जलमें विचरनेवाला पंछी, उसमें रहकर भी पानीसे लिप्त नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी सम्पूर्ण प्राणियोंमें निर्लिप्त होकर विचरता है। निर्लेप होना ही आत्माका स्वरूप है, ऐसा अपनी बुद्धिसे निश्चय करके मनुष्य दुःख पड़नेपर शोक न करे और सुख मिलनेपर हर्षसे फूल न उठे। सब जीवोंके प्रति समान भाव रखे। जैसे मैले बदनवाले मनुष्य जलसे भरी हुई नदीमें नहा-धोकर साफ-सुखे हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी नदीमें अवगाहन करके मलिन हृदयवाले पुरुषभी शुद्ध एवं विद्वान् हो जाते हैं। यही विशुद्ध अध्यात्मज्ञान है। जो मनुष्य बुद्धिसे जीवोंके आवागमनपर शनः-शनः विचार करके इस उत्तम ज्ञानको प्राप्त कर लेता है, उसे अक्षय सुख मिलता है। जो धर्म, अर्थ और कामको ठीक-ठीक समझकर उसका परित्याग कर चुका है और योग्यवृत्त चित्तसे आत्मतत्त्वके अनुसंधानमें जग गया है, वही तत्त्वदर्शी है। उसे दूसरी कोई वस्तु जाननेकी उत्कण्ठा नहीं होती। उस परमात्माको जानकर ज्ञानी पुरुष अपनेको ह्यतार्थ मानते हैं। अज्ञानियोंको जिस संसारसे महान् भय बना रहता है, उसीसे ज्ञानियोंको तनिक भी भय नहीं होता।

ध्यानयोगका वर्णन और जपकी महिमा बतानेके लिये एक जापक ब्राह्मणकी कथा

भीष्मजी कहते हैं—कुन्तीनन्दन! अब मैं तुमसे ध्यानयोगका वर्णन कर रहा हूँ, जिसे जानकर महर्षिगण इस लोकमें सनातन सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। योगियोंको चाहिये कि वे सर्वोन्मार्ग आदि द्वन्द्वोंको सहन करते हुए नित्य सत्त्वगुणमें स्थित रहें और सब प्रकारकी आसक्तियोंसे मुक्त होकर शौचसंतोष आदि नियमोंका पालन करते हुए ऐसे स्थानोंपर ध्यान करें, जहाँ स्त्री आदिका संसर्ग तथा ध्यानविरोधी वस्तुएँ न हों, जहाँ मनमें पूर्णतया शान्ति बनी रहे। योगका साधक इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे समेट कर फाण्डकी भाँति निश्चल होकर बैठ जाय और मनको एकाग्र करके परमात्मामें लगा दे। उस समय ध्यानमें इस प्रकार मान हो जाय कि कानोंमें कोई शब्द न सुनायी दे, त्वचासे स्पर्शका अनुभव न हो, आँखसे रूपका, जिह्वासे रसका तथा नासिकासे सुगन्धित वस्तुओंका पता न चले। पाँचों इन्द्रियोंको मोहमें डालनेवाले विषयोंकी इच्छा ही न हो। बुद्धिमान् योगी पहले

इन्द्रियोंको मनमें स्थिर करे; फिर पाँचों इन्द्रियोंसहित मनको ध्यानमें एकाग्र करे।

इस प्रकार प्रयत्न करनेसे पहले तो कुछ देरके लिये इन्द्रियोंसहित मन स्थिर हो जाता है, किंतु फिर बादलोंमें चमकती हुई विजलीकी तरह वह बारंबार विषयोंकी ओर जानेके लिये चञ्चल हो उठता है। जैसे पत्तेपर पड़ी हुई पानीकी बूँद सब ओरसे हिलती रहती है, उसी तरह ध्यानमार्गमें स्थित साधकका मन भी चलायमान होता रहता है। एकाग्र करनेपर कुछ देरतक तो वह ध्यानमें स्थिर रहता है, किंतु फिर नाडीमार्गमें प्रवेश करके वायुकी भाँति चञ्चल हो जाता है। ऐसे विकेपके समय ध्यानयोगको जाननेवाले साधकको खेद या चिन्ता नहीं करनी चाहिये; बल्कि आलस्य और मात्सर्यका त्याग करके ध्यानके द्वारा मनको पुनः एकाग्र करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

योगी जब ध्यानका आरम्भ करता है तो पहले उसके

धर्मने कहा—विप्रवर ! यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते तो देखो, ये काल, मृत्यु और यम स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं ।

तदनन्तर यम, काल और मृत्यु तीनों उस ब्राह्मणके पास आ पहुँचे । सबसे पहले यमदेवता बोले 'द्विजवर ! मैं यम हूँ और यह कहनेके लिये आया हूँ कि तुम्हारे उत्तम आचरण और कठोर तपस्याका फल तुम्हें प्राप्त हुआ है ।' कालने कहा 'मैं काल हूँ और यह सूचना दे रहा हूँ कि तुम्हें इस जपका बहुत उत्तम फल मिला है । यह तुम्हारे स्वर्गलोक चलनेका समय है ।' मृत्युने कहा 'धर्मज्ञ ! मुझे मृत्यु समझो । मैं कालकी प्रेरणासे तुम्हें यहाँसे ले चलनेके लिये आया हूँ ।'

ब्राह्मणने कहा—सूर्यपुत्र यम, महात्मा काल, मृत्यु और धर्मका मैं स्वागत करता हूँ । बताइये, मैं आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ ?



यह कहकर ब्राह्मणने उन सबको पाद्य-अर्घ्य आदि निवेदन किया और प्रसन्नतापूर्वक पूछा 'अब मुझे क्या आज्ञा है ?' इतनेहीमें तीर्थयात्राके लिये निकले हुए राजा इक्ष्वाकु, जहाँ ये सब लोग एकत्रित हुए थे, वहाँ आ पहुँचे । राजर्षिने सबका पूजन और प्रणाम करके कुशल-समाचार पूछा । तत्परचात् ब्राह्मणने भी राजाको आसन और पाद्य-अर्घ्य देकर कुशल-प्रश्नके बाद कहा 'महाराज ! आपका स्वागत

है । कहिये, मैं अपनी शक्तिके अनुसार आपका कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ ?'

राजाने कहा—मैं राजा हूँ और आप ब्राह्मण; इसलिये आपको कुछ धन देना चाहता हूँ, आपको जितने धनकी आवश्यकता हो, मुझसे माँगिये ।

ब्राह्मणने कहा—राजन् ! ब्राह्मण दो प्रकारके होते हैं—एक प्रवृत्तिमार्गमें चलनेवाले और दूसरे निवृत्तिमार्गका आश्रय लेनेवाले । मैं अब प्रतिग्रहसे निवृत्त हो गया हूँ । जो लोग प्रवृत्तिमार्गपर चलनेवाले हों, उनको दान दीजिये । मैं तो अब दान लेता नहीं । हाँ, अपनी कुछ इच्छा हो तो बताइये, मैं आपको क्या दूँ ? अपने तपोबलसे आपका कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ ?

राजाने कहा—यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पूरे सौ वर्षोंतक जप करके आपने जिस फलको प्राप्त किया है, वही दे दीजिये ।

ब्राह्मणने कहा—एवमस्तु, आप मेरे जपका उत्तम फल स्वीकार कीजिये ।

राजा बोले—आपका भला हो, मैंने जो जपका फल माँगा है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है; इसलिये जाता हूँ, साथ ही एक बात पूछता हूँ, उसे बताइये; आपके इस जपका फल है क्या ?

ब्राह्मणने कहा—इसका फल क्या मिलेगा ? यह मैं नहीं जानता; परंतु मैंने जो कुछ जप किया था, वह आपको दे दिया । ये धर्म, यम, मृत्यु और काल इस बातके साक्षी हैं ।

राजाने कहा—ब्रह्मन् ! यदि आप अपने जपका फल नहीं बतला सकते तो वह अज्ञात फल मेरे किस काम आयगा ? मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता; यह आपहीके पास रहे ।

ब्राह्मणने कहा—राजन् ! अब तो मैं अपने जपका फल दे चुका । अब दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूँगा । हम दोनोंको अपनी-अपनी बातपर दृढ़ रहना चाहिये । पहले जप करते समय कभी मैंने फलकी कामना नहीं की थी, अतः इस जपका क्या फल होगा ?—यह कैसे जान पाऊँगा । आपने 'दीजिये' कहकर माँगा और मैंने 'देता हूँ' कहकर दे दिया—ऐसी दशामें अपनी बात झूठी नहीं करूँगा । आप धैर्य धारण करके सत्यकी रक्षा कीजिये । इस प्रकार स्पष्ट बतानेपर भी यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको असत्यका महान् पाप लगेगा । स्वयं यहाँ पधारकर आपने मुझसे जपके फलकी याचना की और वह मैंने आपको अर्पण कर दिया; इसलिये अब आप सत्यपर दृढ़ रहकर

मेरे लिये हुए फनको स्वीकार कीजिये। मूढ भोलनेवाले मनुष्यको न इस सोचमें गुप्त मिलता है न परलोकमें। यह अपने पूर्वजोंको भी नहीं सार सकता; फिर आनेवाली पीढ़ीका तो उद्धार कर ही कैसे सकता है? परलोकमें सत्यसे जिस प्रकार जीवका उद्धार होता है, उस तरह यज्ञ, दान और नियमोंसे नहीं। लोगोंने अबतक जितनी तपस्याएँ की हैं और भक्तिधर्ममें जे जितनी करेंगे, उन सबको अगर संकष्टों और साधनोंकी तादात्म्यमें इकट्ठा किया जाय, तो भी उनका महत्त्व सत्यसे बढ़कर नहीं सिद्ध हो सकता। एकमात्र सत्य ही अविनाशी ब्रह्म है, सत्य ही अद्वय तप है, सत्य ही अविनाशी यज्ञ तथा सत्य ही सनातन वेद है। वेदोंमें सत्यको ही महिमा गायी गयी है। सत्यसे ही श्रेष्ठ फलकी प्राप्ति होती है। धर्म और इन्द्रिय-संयमको सिद्धि भी सत्यसे ही होती है। सत्यके ही आधारपर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य ही वेद, वेदान्त, विद्या, विधि, व्रत और अंकाररूप है। सत्यके ही प्रभावसे प्राणियोंका जन्म और उन्हें संतानकी प्राप्ति होती है। सत्यके बलसे ही हवा चलती, सूर्य तपते और भाग जलती है। स्वर्ग भी सत्यपर ही स्थित है। यज्ञ, तप, वेद, स्तोत्र, भग्य तथा सारस्वती—ये सब सत्यके ही स्वरूप हैं। मंने सुना है, किसी समय धर्म और सत्यको तराजूपर रखकर तोला गया तो जिधर सत्य था, उधरका ही पसड़ा भारी हुआ। जहाँ धर्म है, वहाँ सत्य है। सत्यसे ही सबकी वृद्धि होती है। इसलिये राजन्! आप भी सत्यपर ही बृद्ध रहिये। असत्यका मतिय न कीजिये। यदि मेरे लिये हुए जापके फलको आप नहीं स्वीकार करेंगे, तो धर्मसे घृष्ट होकर संसारमें घटकते फिरेंगे। जो पहले बनेकी प्रतिष्ठा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचना तो करता है, किन्तु मिननेपर उसे लेना नहीं चाहता—ये दोनों ही निव्याधावही होते हैं। अतः आप मेरी और अपनी भी बात निव्या न कीजिये।

राजाने कहा—ब्रह्मन्! क्षत्रियका धर्म तो प्रजाकी रक्षा और वृद्ध करना है। क्षत्रियोंकी दाता कहा गया है। ऐसी बशामें मैं उलटे आपसे ही दान कैसे ले सकता हूँ?

ब्राह्मणने कहा—राजन्! 'दान सेनेके लिये मंने आपसे प्रार्थना नहीं की थी और न मैं देनेके लिये आपके घर ही गया था। आपने स्वयं यहाँ आकर माँगा है, अब सेनेसे क्यों इनकार करते हैं।

राजाने कहा—विप्रवर! यदि आपने अपने जापका उत्तम फल देनेका ही निरवय किया है, तो ऐसा कीजिये; हम दोनोंके ओ भी पुण्यफल हूँ, उन्हें एकत्र करके दोनों साथ ही भोगें। ब्राह्मणोंकी दान सेनेका अधिकार है और

क्षत्रिय केवल दान देते हैं, लेते नहीं। इस धर्मको आपने भी सुना होगा, अतः हमसोय साथ-ही-साथ भोगिके कर्म-फलका उपभोग करें। अथवा आपकी ऐसी इच्छा न हो तो साथ रहकर कर्मफल भोगनेकी आवश्यकता नहीं है। उस अवस्थामें मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे शुभकर्मोंका पूरा-पूरा फल स्वीकार कर लें—यह आपका मेरे ऊपर महान् अनुग्रह होगा।

ब्राह्मणने कहा—राजन्! आपके माँगनेपर मैंने जो कुछ देनेकी प्रतिष्ठा की है, उसे ले लीजिये; क्योंकि यह मेरे पास आपकी धरोहरके रूपमें रखना है। यदि नहीं लेंगे तो मैं आपको शपथ से बंधूँगा।

राजाने कहा—जितके कार्यका यहाँ ऐसा परिणाम निकला, उस राजाने धर्मको धिक्कार है। अब तो मुझे आपके समान फलमागी होनेके लिये ही यह दान स्वीकार करना है। आज तो पहले कित्तिके सामने कुछ लेनेके लिये मैंने हाथ नहीं फैलाया था, किन्तु आज ऐसा करना पड़ा है। आप जिते मेरी धरोहर मानते हैं, यह कीजिये।

ब्राह्मणने कहा—राजन्! मैंने पापघ्निका जप करके जितना भी पुण्य-संग्रह किया है, यह सब आप ले लीजिये।

राजाने कहा—विप्रवर! मैं भी अपने हाथमें संकल्पका जल ले चुका हूँ। अब आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिये। जितसे हमसोय साथ-ही-साथ रहकर सगान फलके भागी हों।

सौम्यजी कहते हैं—तबन्तर, उस ब्राह्मणने राजाका अनुरोध मान लिया और वहाँ आये हुए धर्म, यज्ञ, काल तथा मनुष्यका पूजन करके उन सबको प्रणाम किया। राजा और ब्राह्मणके उपर्युक्त निरवयको जानकर बैद्यराज इन्द्र भी बहुतसे देवताओं और लोकपालोंके साथ वहाँ उपस्थित हुए। साध्य, विश्वदेव, मधुगण, नवी, पर्यंत, समुद्र और तीर्थोक्त भी शुभागमन हुआ। तप, वेद, वेदान्त, स्तोत्र, सारस्वती, नाद, पर्यंत, विषयायु, हाहा, हूह, परिवारसहित चित्रसेन, नाग, सिद्ध, मुनि, प्रजापति तथा अधिपत्यरूपक भगवान् विष्णुने भी वहाँ बसंग दिया। उस समय क्षात्रसामें मेरी और तुम्ही आदि बाजे बजने लगे। कृत्तिका वर्षा होने लगी।

तबन्तर, जापक ब्राह्मण और राजा इश्यायु—दोनोंके एक ही साथ अपने मनको साथ विषयोंसे हटा लिया। पहले (पूलाधार चक्रके कुण्डलनीको उठाकर) प्राण, अनाह, उदान, समान और ध्यान—इन पाँचों प्राणवायुओंको हृदय (अनाहत चक्र) में स्थापित किया, फिर मनको प्राण और अगानके साथ मिलाकर नासिकाके अधभागपर वृद्धि रखते हुए उसे दोनों मोहोंके बीच आशाचक्रमें स्थिर किया। इस

दिखायी देगी, न धुआँ। उसी प्रकार इस शरीरका पेट फाड़ने या हाथ-पैर काटनेसे कोई अन्तर्गामी आत्माका दर्शन नहीं कर सकता; क्योंकि वह शरीरसे भिन्न है। किन्तु उन्हीं फाण्डोंका युक्तिपूर्वक मन्यन करनेसे जैसे अग्नि और धूम दोनों ही देखनेमें आते हैं, उसी तरह योगके द्वारा मन और इन्द्रियोंकी आत्मामें समाहित करनेपर बुद्धिमान् पुरुष अपने स्वरूपभूत आत्माका साक्षात्कार कर सकता है। जैसे सपनेमें मनुष्य अपने शरीरको आत्मासे अलग और पृथ्वीपर पड़ा देखता है, उसी प्रकार दस इन्द्रिय, पाँच प्राण तथा मन और बुद्धि—इन सत्रह तत्त्वोंसे बने हुए लिङ्गशरीरके साथ रहने-वाला जीवात्मा शरीरको अपनेसे पृथक् जाने। जो ऐसा नहीं जानता, वही एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जन्म लेता रहता है। आत्मा शरीरसे सर्वथा भिन्न है, वह इसके उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय और मृत्यु आदि दोषोंसे कभी लिप्त नहीं होता। कोई भी इन चर्मचक्षुओंके द्वारा आत्माके स्वरूपको नहीं देख सकता। अपनी त्वचासे उसका स्पर्श नहीं कर सकता और

न अपनी इन्द्रियोंसे उसका कोई कार्य ही सिद्ध कर सकता है। इन्द्रियाँ उसे नहीं देखतीं, पर वह उन सबको देखता है। जीव अपने दृश्य शरीरका त्याग करके जब दूसरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है तो पहलेके स्थूल देहको पाँचों भूतोंमें मिलनेके लिये छोड़कर दूसरे शरीरका आश्रय ले उसीको अपना स्वरूप मान लेता है। मनुष्यके मरनेपर उसके शरीरके पाञ्चभौतिक अंश अपने-अपने महाभूतोंमें मिल जाते हैं, किन्तु श्रोत्र आदि सत्रह तत्त्वोंका लिङ्गशरीर कर्म-वासनामें आविष्ट हो दूसरे स्थूल देहमें प्रवेश करके पाँचों विषयोंका सेवन करता रहता है। श्रोत्रेन्द्रिय आकाशके गुण शब्दका, घ्राणेन्द्रिय पृथ्वीके गुण गन्धका, तैजस नेत्रेन्द्रिय तेजके गुण रूपका, रसनेन्द्रिय जलके गुण रसका तथा त्वगिन्द्रिय वायुके गुण स्पर्शका सेवन करती है। इन्द्रियोंके पाँचों विषय पाँच महाभूतोंमें रहते हैं, पाँचों महाभूत इन्द्रियोंमें रहते हैं, इन्द्रियाँ मनकी अनुगामिनी हैं, मन बुद्धिके आश्रित है और बुद्धि आत्माका आश्रय लेकर स्थित है।

आत्माकी दुर्विज्ञेयता

मनुजी कहते हैं—वृहस्पते ! मनुष्य उस आत्माका नेत्रोंसे दर्शन नहीं कर सकता, त्वचासे स्पर्श नहीं कर सकता और श्रोत्रसे श्रवण नहीं कर सकता। वह इन सबका अपना-आप है और ये श्रोत्रादि स्वयं ही अपने-आपको नहीं देख सकते। आत्मा सर्वज्ञ और सबका साक्षी है तथा सर्वज्ञ होनेसे इन सबको देखता भी है। किन्तु जिस प्रकार मनुष्योंको दिखायी न देनेपर भी हिमालयके दूसरे पार्श्व और चन्द्रमाके पृष्ठभागके विषयमें यह नहीं कहा जा सकता कि वे हैं ही नहीं, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका ज्ञानस्वरूप आत्मा इन्द्रियोंका विषय न होनेपर भी 'नहीं है' ऐसा नहीं कहा जा सकता। रूपवान् वस्तुएँ अपनी उत्पत्तिसे पूर्व और नष्ट हो जानेपर रूपहीन रहती हैं, इस नियमसे जैसे बुद्धिमानलोग उनकी अरूपताका निश्चय कर लेते हैं तथा सूर्यके उदय और अस्तके द्वारा जैसे उसकी गतिका अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार विवेकी लोग बुद्धिरूप दीपकके द्वारा दूरस्थ ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेते हैं। जिस प्रकार मृगोंसे मृग, पक्षियोंसे पक्षी और हाथियोंद्वारा हाथियोंको पकड़ा जा सकता है, वैसे ही ज्ञान-स्वरूप आत्माको ज्ञानद्वारा ग्रहण किया जा सकता है। हमने सुना है कि सपके पैरोंको सप ही पहचानता है। उसी प्रकार समस्त शरीरोंमें स्थित ज्ञेय आत्माको पुरुष ज्ञानद्वारा ही जान सकता है। जिस प्रकार अन्धकाररूप राहु चन्द्रमा-

की ओर आता या उसे छोड़कर जाता दिखायी नहीं देता, वैसे ही जीवात्मा शरीरमें आता या उसे छोड़कर जाता हुआ जान नहीं पड़ता। जैसे चन्द्रमा या सूर्यका संयोग होनेपर राहु दीखने लगता है वैसे ही वेहसे संयुक्त होनेपर आत्माका 'यह देहधारी है' ऐसा ज्ञान होने लगता है। किन्तु जैसे चन्द्रमा और सूर्यसे अलग होनेपर राहुकी उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही शरीरसे छूट जानेपर जीव दिखायी नहीं देता। जैसे अमावस्याकी रातमें चन्द्रमा स्वयं अदृश्य होकर नक्षत्रोंमें मिल जाता है, वैसे ही जीव शरीरसे छूटकर अपने कर्मोंके फलत्वरूप दूसरे शरीरसे जुड़ जाता है।

जिस प्रकार मनुष्य शुद्ध और स्थिर जलमें नेत्रद्वारा अपना रूप देख सकता है, वैसे ही इन्द्रियोंके शुद्ध और स्थिर हो जानेपर वह ज्ञानदृष्टिसे ज्ञेयस्वरूप आत्माका साक्षात्कार कर सकता है तथा जलमें हलचल पैदा होनेसे जैसे रूप दिखायी नहीं देता, वैसे ही इन्द्रियोंके चञ्चल हो उठनेपर बुद्धिके द्वारा आत्माका अनुभव नहीं होता। अज्ञानसे अविद्या आती है और अविद्यासे मन रागादि दोषोंमें फँस जाता है। इस प्रकार मनके दूषित होनेसे उसके अधीन रहनेवाली पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ भी दूषित हो जाती हैं। अतः अज्ञानी मनुष्य विषयोंमें सदा डूबा रहकर कभी मुक्त नहीं होता तथा अपने प्रारब्धके अनुसार वह विषय-भोगकी इच्छासे बारंबार इस संसारमें

जन्म लेता रहता है। पापके कारण ही संसारमें पुण्यकी सृष्टिका अन्त नहीं होता; जब पापोंकी समाप्ति हो जाती है तभी उसकी सृष्टि नष्ट होती है। विषयोंके संसारे, सर्वदा जन्हींमें रचे-बचे रहनेसे तथा मनके द्वारा विपरीत साधनोंका अवलम्बन करनेसे परब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती। जब पाप-कर्मोंका क्षय हो जाता है तभी पुण्यकी ज्ञान प्राप्ति होता है। दर्पण स्वच्छ होनेपर जैसे प्रतिबिम्ब दीखने लगता है, उसी प्रकार वह अपने शुद्ध हृदयमें परमात्माका साक्षात्कार करने लगता है। मनुष्य विषयोंकी ओर इन्द्रियोंके फँस जानेसे दुखी बना हुआ है और जहाँके संकुचित होनेसे सुखी हो सकता है। अतः उसे बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंको उनके विषयोंकी ओरसे रोककर धाममें रखना चाहिये। इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, उससे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञानसे परमात्मा श्रेष्ठ है। अव्यक्त परमात्मासे ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है तथा ज्ञानसे बुद्धि और उससे मन प्रकट हुआ है। वह मन ही धोखादि इन्द्रियोंसे युक्त होकर विषयोंको देखता है। जो पुण्य शब्दादि

विषय, सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थ और प्राकृत विषयोंको त्याग देता है, यह अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। परंतु सकाम कर्म करनेवाला पुण्य बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें पड़कर सुख-दुःखादि कर्मफलको ही भोगता रहता है। इन्द्रियोंद्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेसे पुण्यके विषय तो छूट जाते हैं, परंतु उनमें उसकी आसक्ति बनी रहती है। वह तो तभी छूटती है जब उसे परब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है। जिस समय बुद्धि कर्मजनित गुणोंसे छूटकर मननात्मिका वृत्तिमें स्थित हो जाती है, उस समय मन ब्रह्ममें लीन होकर तद्रूप हो जाता है। परब्रह्म स्वरां, श्रवण, रसन, दर्सन, ध्याण और संकल्प सभी प्रकारके कर्मोंसे रहित है; इसलिये उस-तक केवल विगुण बुद्धिकी ही पहुँच हो सकती है। विषयोंका मनमें लय होला है, मनका बुद्धिमें, बुद्धिका ज्ञानमें और ज्ञानका परमात्मामें लय होता है। इन्द्रियां मनको नहीं जानतीं, मन बुद्धिको नहीं जानता और बुद्धि अव्यक्त आत्माको नहीं जानती; किंतु अव्यक्त इन सबको जानता है।

आत्मदर्शनका उपाय

मनुजी कहते हैं—वृहस्पतिजी ! जब शारीरिक या मानसिक दुःख आ पड़े तो उसके लिये मनुष्यको चिन्तित नहीं होना चाहिये। दुःखका चिन्तन न करना ही उसकी ओषधि है। चिन्तन करनेसे तो वह सामने आता है और अधिकाधिक बढ़ता ही है। अतः मानसिक दुःखको विचारसे और शारीरिक व्याधिको ओषधियोंसे दूर करे। यही विज्ञानकी सामर्थ्य है; बच्चोंके समान शोक नहीं करना चाहिये। यौवन, रूप, जीवन, धनसंप्रदा, आरोग्य और प्रियजनोका समागम—ये सब अनित्य ही हैं। विचार-शीलोंको इनका लोभ नहीं करना चाहिये। जिस दुःखका सारे राष्ट्रसे सम्बन्ध हो उसके लिये एक व्यक्तिको शोक नहीं करना चाहिये। हाँ, यदि उसे उसके प्रतिकारका कोई उपाय दीखता हो तो शोक न करके वह उपाय ही करना चाहिये। इसमें संदेह नहीं, मनुष्यके जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक है। जो पुण्य इन्द्रियोंके विषयोंमें राग करता है, उसे मोहवरा धौतके मूँहमें जतना पड़ता है; किंतु जो पुण्य सुख-दुःख दोनोंको त्याग देता है, वह परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है, विचारशीलोंको उसके लिये शोक नहीं करना पड़ता। विषयोंके उपाजंनमें दुःख है, उनकी रक्षा करनेमें भी सुख नहीं है तथा दुःखसे ही उनकी उपलब्धि होती है; अतः उनका नाश हो जाय तो चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

जिस समय बुद्धि अपने कर्मजनित संस्कारोंके सहित चित्तकी मननात्मिका वृत्तिमें स्थित हो जाती है, उसी समय ध्यानयोगजनित समाधिसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो, जैसे जलकी धारा पर्वतके शिखरसे निकलकर डाल-को और बहती है, वैसे ही यह गुणात्मिका बुद्धि गुणमय पदार्थोंकी ओर ही जाती है। जिस समय यह ध्यानयोगके द्वारा निर्गुण तत्त्वतक पहुँच जाती है उसी समय, कसौटीके द्वारा जैसे सुषर्णको पहचान लिया जाता है वैसे ही, इसे परब्रह्मका अनुभव हो जाता है। अतः इन्द्रियोंके सब द्वारोंको रोककर मनमें स्थित होना चाहिये। इस प्रकार मनकी एकाग्रता होनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार गुणोंका क्षय होनेपर पञ्चमहामूत्र निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त इन्द्रियोंके सहित मन (अहंकार) में लीन हो जाती है। जब निरचयात्मिका बुद्धि अन्तर्मुख होकर भनमें स्थित होती है तो वह मनस्वरूप ही हो जाती है। मन अनेक प्रकारके गुणोंसे युक्त है, किंतु जब वह ध्यानजन्य गुणोंसे युक्त होता है तो सब गुणोंको त्याग कर निर्गुण ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। उस अव्यक्त ब्रह्मका बोध करानेके लिये संसारमें कोई दूष्यन्त नहीं है। जहाँ वाणीका व्यापार ही नहीं है, उस वस्तुको कौन वर्णनका विषय बना सकता है? इसलिये तपसे, अनुमानसे, शमादि गुणोंसे, ब्राह्मणादि जाति

धर्मोंका पालन करके तथा शास्त्राभ्यासके द्वारा चित्तको शुद्ध करके परब्रह्मको जाननेका प्रयत्न करे। गुणातीत पुरुष उस अतर्कनीय परब्रह्मको चाहर-भीतर समानभावसे अनुभव कर सकता है।

वृहस्पतिजी ! धर्म करनेसे श्रेयकी वृद्धि होती है और अधर्मसे अकल्याण होता है। रागी पुरुष प्रकृतिके राज्यमें रहता है और विरयत आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिस समय मनुष्य शब्दादि पाँच विषयोंके सहित पाँचों ज्ञानेन्द्रिय और मनको फावूमें कर लेता है, उस समय वह मणियोंमें ओतप्रोत तागेके समान सर्वत्र व्याप्त परब्रह्मका साक्षात्कार कर लेता है। उसी समय उसे यह भी अनुभव हो जाता है कि जिस प्रकार तागा सुवर्णके दानेकी तरह ही होती, मूंगा और मृत्तिकाके भी दानोंमें पिरोया हुआ है, उसी प्रकार अपने कर्मोंके अनुसार आत्मा भी गौ, अश्व, मनुष्य, हाथी, मृग और फीट-पतंगादि समस्त शरीरोंमें व्याप्त है। यह जिस-जिस शरीरसे जो-जो कर्म करता है, उस-उस शरीरसे उसीका फल प्राप्त करता है।

मनुष्यको पहले विषयका ज्ञान होता है, फिर उसे पानेकी इच्छा होती है, उसके बाद प्रयत्न और फिर कर्म होता है तथा कर्म करनेपर उसका फल मिलता है। इस प्रकार फलको कर्मस्वरूप, कर्मको श्रेयस्वरूप, श्रेयको ज्ञान-स्वरूप और ज्ञानको सदसत्स्वरूप समझना चाहिये। इस प्रकार ज्ञान, फल, श्रेय और कर्म—इन सबका क्षय होनेपर जो फल प्राप्त होता है उस परमात्माको ही तुम श्रेयमात्रमें ध्याप्त वास्तविक ज्ञान समझो। उस परमतत्त्वको योगिजन ही देखते हैं, विषयोंमें आसक्ति अबानी जन अपने आत्मामें स्थित उस परब्रह्मको नहीं देखते। यहाँ जो कुछ दिखायी देता है, उनमें सारी पृथ्वीसे बढ़कर जल है, जलसे बड़ा

तेज है, तेजसे बड़ा पवन है, पवनसे बड़ा आकाश है, आकाशसे बड़ा मन है, मनसे बड़ी बुद्धि है, बुद्धिसे बड़ा काल है और कालसे बड़े भगवान् विष्णु हैं। उन्हींसे यह सारा जगत् हुआ है, उन विष्णुभगवान्का कोई आदि, अन्त या मध्य नहीं है। आदि, मध्य और अन्तसे रहित होनेके कारण वे अविनाशी भी हैं। वे सम्पूर्ण दुःखोंसे परे हैं। दुःख ही सान्त हुआ करता है। अविनाशी विष्णु ही परब्रह्म कहे जाते हैं। वे ही परमधाम और परमपद भी हैं। उनके पास पहुँचकर जीव कालके अधिकारसे निकलकर भोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता और कर्मजनित अन्तरायोंके कारण मनुष्योंको उनके पास पहुँचनेका मार्ग दिखायी नहीं देता। लोगोंकी विषयोंमें आसक्ति है, स्वर्गादि चिरस्थायी सुखोंपर भी उनकी दृष्टि लगी रहती है और वे परमात्मासे भिन्न अनेकों वस्तुओंको पानेके लिये उत्सुक रहते हैं। इसीसे उन्हें ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य इस संसारमें जिन-जिन विषयोंको देखते हैं, उन्हींको पाना भी चाहते हैं। इस प्रकार वे विषयोंके पीछे ही भटकते रहते हैं, निर्विषय परमात्माको पानेकी उन्हें कभी इच्छा नहीं होती। भला, जो इन तुच्छ विषयोंमें फँसा हुआ है, वह परब्रह्म परमात्माको कैसे जान सकता है? वास्तवमें परमात्मा अत्यन्त बुद्धिमान है। हम ध्यानद्वारा सूक्ष्म हुए मनसे उसका अनुभव तो कर सकते हैं, किन्तु चाणीसे वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्यको चाहिये कि ज्ञानद्वारा बुद्धिको निर्मल करे, बुद्धिसे मनको शुद्ध करे और मनसे इन्द्रियोंका शोधन करे। तब वह अक्षर परमात्माको प्राप्त कर सकता है। वह परमात्मा अजन्मा है, पुण्यवानोंकी परमगति है, स्वर्गसिद्ध है, सबकी उत्पत्ति और लयका स्थान है, अविनाशी है, सनातन है, आदि, मध्य और अन्तसे रहित है तथा अविचल है। उसे जान लेनेपर जीव अमृतत्व प्राप्त कर लेता है।

भगवान् विष्णुसे विश्वकी उत्पत्ति तथा बराह अवतारका वर्णन

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! कमलनयन भगवान् विष्णु अविनाशी, समस्त जीवोंके उत्पत्ति और प्रलयके स्थान, अजेय और व्यापक हैं। वे नारायण, हृषीकेश, गोविन्द और केशव—इन नामोंसे भी विख्यात हैं। मैं उनके स्वरूपका तात्त्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ।

भीष्मजी बोले—राजन् ! मैंने यह प्रसंग जमदग्निनन्दन भगवान् परमुराम, देवर्षि नारद और कृष्णद्वैपायन ध्यासके मुँहसे सुना है। महर्षि असित, देवल, वाल्मीकि और

मार्कण्डेयजी भी इस अद्भुत रहस्यका वर्णन किया करते हैं। भगवान् विष्णु सबके ईश्वर और नियन्ता हैं। वे पुरुष एवं चिराट् आदि अनेकों नामोंसे प्रसिद्ध और सर्वव्यापक हैं। लोकमें ब्रह्मवेत्ता पुरुष उन शाङ्गधन्या भगवान्के जिन चरित्रोंको जानते हैं तथा पुराणवेत्ता जिनका निरूपण करते हैं, यह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वे पुरुषोत्तम सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं; उन्हींने अपने संकल्पद्वारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—इन पाँचों भूतोंकी रचना की है। उन

सर्वभूतेश्वर भगवान् विष्णुने पृथ्वीको रचना करके जलमें शयन किया तथा अपने सम्पूर्ण तेजसे सम्पन्न होकर उन्होंने मनसे ही समस्त भूतोंके अप्रज भगवान् संकर्यणको उत्पन्न किया। ये भगवान् संकर्यण ही समस्त भूतोंके आधार हैं तथा भूत-भविष्यत् सभी प्राणियोंको धारण करते हैं।

इसके बाद उनकी नामसे एक सूर्यके समान तेजोमय कमल प्रकट हुआ। उससे सम्पूर्ण भूतोंके पितामह भगवान् ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्माजीके अङ्गकी कान्तिसे सारी दिशाएँ देदीप्यमान हो उठीं। इसी समय अण्डकारसे आदिदेव्य मधुका जन्म हुआ। भगवान् पुरुषोत्तमने ब्रह्माका हित करनेके लिये उस उपकर्मा अशुरका वध कर डाला। उसका वध करनेके कारण ही भगवान्को समस्त देवता, दानव और मनुष्य 'मधुसूदन' कहते हैं। इसके परचात् ब्रह्माजीने मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और दक्ष—इन सात भानसपुत्रोंको उत्पन्न किया। इन सबमें बड़े मरीचिने मन्-हीसे करयपको उत्पन्न किया। महर्षि करयप बड़े ही तेजस्वी और ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं। ब्रह्माजीने मरीचिसे भी बड़े दक्षको अपने अँगूठेसे उत्पन्न किया था। वह 'प्रजापति' पद-पर प्रतिष्ठित हुआ। प्रजापति दक्षके पहले तेरह कन्याएँ हुई थीं, इनमें दिति सबसे बड़ी थी। समस्त धर्मोंको विरोध-रूपसे जाननेवाले, परमशस्त्री मरीचिचन्दन करयप इन सब कन्याओंके पति हुए। इसके बाद दक्षने दस कन्याएँ और उत्पन्न कीं तथा उन्हें धर्मके साय विवाह दिया। इन कन्याओंसे धर्मके वसु, खर, विरवेदेव, साध्य और मरुद्गणने जन्म लिया।

प्रजापति दक्षके इनसे छोटी सत्ताईस कन्याएँ और भी हुई। उन सबके पति महामाग चन्द्रमा हुए। करयपजीकी अन्याय सत्त्वयोसे गन्धर्व, अरव, पक्षी, गौ, किम्बुच्य, मत्स्य, उद्भिर्ज्ज और वनस्पति आदि उत्पन्न हुए। अदितिसे देवताओंमें श्रेष्ठ महाबली आदित्योंका जन्म हुआ। उन्होंने विष्णुने वामनरूपसे जन्म लिया था। उनके पराक्रमसे देवताओंकी शोचुद्धि हुई और दानव तथा दैत्योंका पराभव हुआ। विप्रचिति आदि दानव दनुके पुत्र थे तथा दितिसे महाबली दैत्योंका जन्म हुआ था।

फिर श्रीभगवान्ने दिन, रात, ऋतु, पूर्वाह्न, अपराह्न आदि भेदसे कालकी व्यवस्था की तथा अपने संकल्पसे ही मेघ, स्यावर-जङ्गम एवं सम्पूर्ण पदार्थोंके सहित पृथ्वीको रचा। इसके परचात् उन्होंने अपने मुखसे ही सैकड़ों ब्राह्मण उत्पन्न किये तथा भुजाओंसे सैकड़ों क्षत्रिय, जंघाओंसे सैकड़ों वंश्य और चरणोंसे सैकड़ों शूद्रोंकी सृष्टि की। इस प्रकार चारों वर्णोंको उत्पन्न करके उन्होंने स्वयं ब्रह्माजीकी सबका

अध्यक्ष बनाया। महातेजस्वी ब्रह्माजी वेदविद्याके विद्याता हुए। तत्परचात् उन्होंने भूत और मातृगणके अध्यक्ष विश्वाक्ष, पापियोंको दण्ड देनेवाले पितृराज यम, घनाध्यक्ष कुबेर और जलचरोंके स्वामी वरुणको उत्पन्न किया। इन सब देवताओंके अध्यक्ष-पदपर उन्होंने इन्द्रको नियुक्त किया।

उस समय मनुष्योंको यमराजका भय नहीं था। वे जितने दिनोंतक चाहते उतने समयतक ही जीवित रह सकते थे। संतान उत्पन्न करनेके लिये भी उन्हें मंथन-धर्ममें प्रवृत्त होनेकी आवश्यकता नहीं थी। वे संकल्पमात्रसे प्रजाकी उत्पत्ति कर सकते थे। इसके बाद व्रतायुग आने-पर भी मंथन-धर्मका प्रचार नहीं हुआ। उस समय स्पर्श करनेसे ही प्रजा उत्पन्न हो जाती थी। द्वारपरयुगमें मंथन-द्वारा प्रजा उत्पन्न होने लगी और कलियुगमें सब लोग दाम्पत्यपूर्वक रहने लगे।

राजन्! इस प्रकार यह सारा जगत् भगवान् कृष्णसे ही उत्पन्न हुआ है। यह प्रसंग सम्पूर्ण लोकाँका वृत्तान्त जाननेवाले देवर्षि नारदजीने सुनाया था। उन्होंने भी श्रीकृष्णको नित्यता यथार्थरूपसे स्वीकार की है। इस प्रकार ये सत्यपराक्रमी कमलनयन भगवान् कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं हैं, इनकी महिमा अचिन्त्य है।

राजा युधिष्ठिरने कहा—पितामह! भगवान् कृष्ण अविनाशी और सबके ईश्वर हैं। आप इनके प्रभाव और पूर्वकर्मोंका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये। उन्हें सुननेकी मुझे बड़ी इच्छा है। इन्होंने जगत्प्रभु होकर भी तिरंग्योनिमें किस निमित्तसे जन्म लिया था, वह सब मुझे बतानेकी कृपा करें।

श्रीधर्मजी बोले—राजन्! एक बार मैं शिकार खेलता महर्षि मार्कण्डेयके आश्रमपर जा पहुँचा। वहाँ मुझे सहस्रों भुनि बँठे दिखायी दिये। भुनियोंने मधुपर्क समर्पित करके मेरा बड़ा आदर किया और मैंने भी उनका स्वागत-सत्कार स्वीकार करके अभिनन्दन किया। फिर महर्षि करयपने मुझे यह मनोहर कथा सुनायी। तुम इसे एकाग्रचित्तसे सुनो।

पूर्वकालमें नरकासुर आदि सहस्रों दानव क्रोध और लोभके यशोग्रस्त तथा बलके मदसे मतवाले हो गये। उनके अनेकों और भी साथी युद्धके लिये आतुर हो उठे। उन्हें देवताओंका बढ़ा-चढ़ा वैभव असह्य हो गया। उनका उपद्रव महातक बढ़ा कि उससे तंग आकर देवता और देवर्षिगण जहाँ-तहाँ छिपने लगे। देवताओंने देखा कि भयंकर आकृतियोंवाले महाबली दानवोंसे व्याप्त होकर पृथ्वी बड़ी श्याकुल हो रही है। उसका बोझ बहुत बढ़ गया है, शान्ति नष्ट हो गयी है और वह दुःखके मारसे दबी जा रही है। यह देखकर उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने ब्रह्माजीसे

कहा, 'ब्रह्मन् ! दानवोंका उपद्रव बहुत बढ़ गया है, हम इस अत्याचारको कैसे सहें ?'

तब ब्रह्माजीने कहा, 'देवताओ ! मैंने पहले ही इस विपत्तिको दूर करनेका उपाय कर दिया है। इस समय दानवलोग वर पाकर बल और दर्पसे चूर हो रहे हैं। उन्हें अव्यक्तस्वरूप भगवान् विष्णुका भी कोई भय नहीं है। देखो, इस समय उन्होंने वराहरूप धारण किया है। इनको काबूमें करना देवताओंके लिये भी कठिन है। इस नूमिके नीचे जहाँ दानवलोग सहस्रोंकी संख्यामें रहते हैं, भगवान् वराह वहाँ जाकर उन सबका संहार करेगे।'



ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर सभी देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई।

तब महातेजस्वी भगवान् विष्णु वराहरूप धारण कर बड़े वेगसे पृथ्वीके नीचे दानवोंके पास गये और उन्हें भयभीत करते हुए बड़ा भीषण शब्द करने लगे। उनके गम्भीर गर्जनसे सारे लोक गूँज उठे तथा उनमें रहनेवाले इन्द्रादि देवता भी घबराने लगे। सारा संसार सन्नाटेमें आ गया, स्यावर-जङ्गल सभी भौंचक्के-से रह गये। उस भीषण नादसे भूचिह्न होकर अनेकों दानव प्राणहीन हो-होकर गिरने लगे। भगवान्ने रसातलमें पहुँचकर उन देवशत्रुओंके मांस, मेद और हड्डियोंको अपने खुरोंसे रौंद डाला।

इसी समय सब देवता मिलकर ब्रह्माजीके पास गये और उनसे पूछा, 'भगवन् ! यह शब्द कैसा हो रहा है ? इसका रहस्य हमारी समझमें कुछ नहीं आ रहा है। यह कौन है और कितका यह शब्द है, जिसने सारे संसारको विह्वल कर दिया है ? इसके तेजसे तो सारे देवता और दानव मोहमुग्ध-से हो गये हैं।' इतनेहीमें भगवान् वराह ऊपर आये। ऋषिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर ब्रह्माजीने कहा, 'देवताओ ! सावधान रहो, ये तो सम्पूर्ण विघ्नोंको नष्ट करनेवाले भगवान् विष्णु ही हैं। ये सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, उनके रक्षक और स्वामी हैं, महान् योगी हैं तथा आत्माओंके आत्मा हैं। देखो, ये महाबली और विशालकाय वराह-रूपसे समस्त बँधराजोंको मारकर यहाँ पधार रहे हैं। इन्होंने जो अद्भुत कर्म किया है, उसे तो तुम सब मिलकर भी नहीं कर सकते थे। तुम्हें किसी प्रकारका संताप, भय या शोक नहीं करना चाहिये। ये ही सारे संसारके रचयिता, पालक और संहारकर्ता हैं। सारे लोकोंका उद्धार करते हुए इन्होंने ही यह महान् शब्द किया था। ये कमलनयन भगवान् ही सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय, अविनाशी और समस्त भूतोंके आदि कारण एवं नियामक हैं।'

गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचारका निरूपण

राजा युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! अब आप मुझे मोक्षके प्रधान कारण योगका वास्तविक स्वरूप सुनाइये। उसे जाननेकी मुझे बड़ी इच्छा है।

भीष्मजी बोले—राजन् ! इस विषयमें गुरु-शिष्यका संवादरूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार कोई ब्रह्मनिष्ठ आचार्य विराजमान थे। वे बड़े ही तेजस्वी, महात्मा, सत्यनिष्ठ और जितेन्द्रिय थे। उनके पास एक

बुद्धिमान्, कल्याणकामी, समाहितचित्त शिष्य आया। उसने उनके चरण-स्पर्श किये और हाथ जोड़कर कहा, 'भगवन् ! यदि आप मेरी सेवासे प्रसन्न हैं तो मेरे मनमें एक बड़ा भारी संदेह है, उसे दूर करनेकी कृपा करें। स्वामिन् ! मेरा और आपका इस संसारमें कहाँसे आना हुआ है ? मैं देखता हूँ कि समस्त भूतोंमें उनके उपादान कारण समान हैं तो भी उनमें किसे अधिक शक्ति है ?'

है तथा वैदिक, स्मार्त और लोकोमें जो वर्णधर्मधर्मसम्बन्धी वाक्य प्रसिद्ध हैं ? उनका किम प्रकार समन्वय हो सकता है, भगवन् ! ये सब बातें मुझे स्पष्ट करके समझानेकी कृपा करें ।

गुरुरने कहा—बेटा ! सुनो, तुम बड़े बुद्धिमान हो; तुमने जो बात पूछी है वह वेदोंका युद्ध रहस्य है, यही अध्यात्म-तत्त्व है और यही समस्त विद्या और शास्त्रोंका सर्वस्व है । विश्वात्मा वेदका मूलकारण जो ओंकार है वह वायुदेव, सत्य, ज्ञान, यत्न, तितित्वा, दम और आर्जवस्वरूप है । वेदज्ञान उसीको पुष्ट, सनातन और विष्णु भी कहते हैं तथा यही जगत्के उत्पत्ति-प्रलय करनेवाला, अव्यक्त और सनातन ब्रह्म भी है । ये ष्ट्त्रिंशत्शोल्पन्न भगवान् कृष्ण भी दही हैं । तुम मुझसे इनका इतिहास सुनो । इन अतुलित तेजस्वी देवदेव भगवान् कृष्णका माहात्म्य ब्राह्मणकी ब्राह्मणोत्ति, क्षत्रियकी क्षत्रियोत्ति, वैश्यकी वैश्योत्ति और शूद्रकी शूद्रोत्ति सुनना चाहिये । तुम श्रीकृष्णका कल्याणकारी चरित सुननेके अधिकारी हो; इसलिये सावधान होकर सुनो । श्रीकृष्ण ही आदि-अन्तसे रहित काल-चक्र हैं । उन्हींके भीतर ये तीनों लोक चक्रके समान घूम रहे हैं । श्रीकृष्णकी ही अक्षर, अव्यक्त, अमृत, सनातन परब्रह्म भी कहते हैं । ये अविनाशी परमात्मा ही पितर, देवता, ऋषि, यज्ञ, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्यादिकी रचना करते हैं । इसी प्रकार कल्पके आरम्भमें अपनी मायामें स्थित होकर ये वेद, शास्त्र और सनातन लोकधर्मोंकी अभिव्यक्त करते हैं । जिस प्रकार ऋतुपरिवर्तनके साथ भिन्न-भिन्न ऋतुओंके लक्षण प्रकट होते रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक युगमें तदनुसृत भावोंकी अभिव्यक्ति होती रहती है तथा कालक्रमसे उन युगादिमें जिस समय जो-जो वस्तु भासती है, उस समय लोकयात्राके द्वारा उसी-उसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न होता रहता है । कल्पके अन्तमें वेद और इतिहासोंका लोप हो जाता है, उन्हीं सर्गके आरम्भमें भगवान् स्वयम्भूके आदेशसे महाविलोग तपद्वारा फिर प्राप्त कर लेते हैं । उस समय स्वयं भगवान् ब्रह्माजीको वेदका, बृहस्पतिजीको वेदाङ्गोंका, शुक्राचार्यको नीतिशास्त्रका, नारदजीको गन्धर्वविद्याका, भरद्वाजकी धनुर्विद्याका, गार्ग्यको देवर्षियोंके चरित्रका और कृष्णात्रेयकी चिकित्सा-शास्त्रका ज्ञान होता है । उसी समय अनेकों शास्त्रज्ञ न्याय आदि विभिन्न तन्त्रोंकी रचना करते हैं । उन्हींमें युवित, शास्त्र और आचरणके द्वारा जो कुछ उपदेश किया है, तुम्हें वही करना चाहिये ।

परब्रह्म अनादि और सबसे परे है, उसे देवता और ऋषि भी नहीं जानते । उसे तो एकमात्र जगत्-पालक भगवान् नारायण ही जानते हैं । नारायणसे ही ऋषि, मध्य-मूष्य देवता और असुर तथा पुराने राजपियोंसे उस ब्रह्मकी

ज्ञाना है । वह ब्रह्मज्ञान समस्त दुःखोंका परमोपय है । जब प्रकृति पुरुषसे अर्घिच्छित विविध पदार्थोंको रचने लगती है तो उससे कारणसहित जगत् उत्पन्न होता है । पहले अव्यक्त प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है, उससे अहंकार, अहंकारसे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जल और जलसे पृथ्वी उत्पन्न होती है । ये आठ मूल प्रकृतियाँ हैं । सारा जगत् इन्हींमें स्थित है । इन्हींमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय और एक मन—ये सोलह विकार होते हैं । श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा और घ्राण—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं; पाद, पायु, उपस्थ, हस्त और वाक्—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं; शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच विषय हैं तथा इन सबमें व्यापक जो सर्वगत वित्त है, वह मन है । मन सर्वरूप है । रसज्ञानके समय यह जिह्वास्वरूप ही जाता है तथा बोलनेके समय यही वाक् कहा जाता है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंके साथ मिलकर उन-उनके रूपमें मन ही व्यक्त होता है । मनको सत्त्वगुणका कार्य कहा है और सत्त्वको अव्यक्तका । अतः बुद्धिमान् पुष्ट्यको चाहिये कि वह आत्माको समस्त भूतोंके आत्मा अव्यक्त (मूल प्रकृति) में स्थित जाने ।

इस प्रकार ये सम्पूर्ण पदार्थ प्रकृतिसे अतीत उस निरञ्जनदेवमें स्थित होकर सम्पूर्ण चराचर जगत्का निर्वाह कर रहे हैं । वह परमात्मा इन पदार्थोंसे सम्पन्न इस नौ द्वारोंवाले पवित्र नगरको व्याप्त करके इसमें शयन करता है, इसलिये उसे 'पुरुष' कहते हैं । वह पुरुष जरा-मरणसे रहित, व्यापक, सर्वज्ञत्वादि गुणोंवाला, सूक्ष्म और समस्त भूत एवं गुणोंका आश्रय है । जिस प्रकार अग्नि काष्ठमें व्याप्त रहने-पर भी दिखायी नहीं देती, उसी प्रकार आत्मा शरीरमें रहता तो है, किन्तु दिखायी नहीं देता तथा जिस तरह यत्नपूर्वक मयनेपर काष्ठमें छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही योगाभ्यासके द्वारा शरीरमें स्थित आत्माका साक्षात्कार हो सकता है । जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके सहित जीवात्मा इस शरीरको छोड़कर अग्न्य चला जाता है, वैसे ही मृत्युके बाद भी वह अन्य शरीर ग्रहण कर लेता है । कर्मके द्वारा ही इस देहका बाध होता है, कर्मसे ही अग्न्य देहकी उपलब्धि होती है तथा अपने किये हुए प्रबल कर्मके द्वारा ही वह अन्य शरीरमें ले जाया जाता है ।

राजन् ! जङ्गम और स्यावर जो चार प्रकारके प्राणी हैं, वे अव्यक्तसे उत्पन्न हुए हैं और अव्यक्तमें ही समा जाते हैं । जिस प्रकार पीपलके बीजमें अव्यक्तरूपसे बड़ा भारी वृक्ष समाया हुआ है, किन्तु वृक्षरूपमें आनेपर वह व्यक्त हो जाता है, वैसे ही इस सारे संसारकी अव्यक्तसे उत्पत्ति होती है ।

जिस तरह लोहा अचेतन होनेपर भी चुम्बककी ओर खिंच जाता है वैसे ही शरीरके उत्पन्न होनेपर उसके स्वाभाविक संस्कार तथा अविद्या, काम, कर्मादि दूसरे गुण उसकी ओर खिंच आते हैं। आत्मा सबके पहले विद्यमान था। वह नित्य, सर्वगत, मनका भी हेतु और उपलक्षण है। अज्ञानरूप कर्म ही जगत्की उत्पत्तिका कारण बताया गया है। इन कारणोंसे युक्त होकर जीव कर्मोंका संग्रह करता है तथा कर्मोंसे वासना और वासनाओंसे पुनः कर्म होते हैं। इस प्रकार यह व्यादि-अन्तर्गुण महान् संसारचक्र चलता रहता है जिस प्रकार तेलीलोग तेलसे युक्त होनेके कारण तिलोंको पेरते हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत् आसक्तिप्रस्त होनेके कारण अज्ञानजनित भोगोंद्वारा कर्मचक्रमें घेरा जा रहा है। जीव अहंकारके अधीन होकर तृष्णाके कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य-कारण-संयोगमें हेतु बन जाता है; अतः विवेकी पुरुषको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका अन्तर जान लेना चाहिये। इन दोनोंके तादात्म्यका-सा अभ्यास हो जानेसे जीव ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध स्वरूपका पता ही नहीं लगता।

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार गुरुदेवने शिष्यकी शङ्का समाधान किया। जैसे भूने हुए बीजोंसे फिर अङ्कुर नहीं निकलते, उसी प्रकार ज्ञानाग्निसे दग्ध हुए अविद्यादि क्लेश फिर आत्माका स्पर्श नहीं कर सकते। कर्म-निष्ठ पुरुषोंको जैसे प्रवृत्तिधर्म ही अच्छा जान पड़ता है वैसे ही विज्ञाननिष्ठोंको ज्ञानाभ्याससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं जान पड़ती। वेदको जाननेवाले और वेदोक्त कर्मोंमें श्रद्धा रखनेवाले पुरुष बिरले ही मिलते हैं। वैदिक कर्मोंका प्रयोजन स्वर्ग या मोक्ष है। इनमें अधिक महत्त्वपूर्ण होनेके कारण बुद्धिमान् लोग सबके द्वारा प्रशंसित निवृत्तिरूप मोक्ष-मार्गको ही चाहते हैं। सत्पुरुषोंने सदासे इसी मार्गको ग्रहण किया है, अतः यही अधिक निर्दोष है। यह वह बुद्धि है जिसका अनुसरण करनेसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त कर लेता है। किंतु देहाभिमानो पुरुष इस मार्गमें नहीं जा सकता। वह तो क्रोध-लोभादि अनेकों राजस-तामस भावोंसे युक्त होकर अज्ञानवश बहुतेसे बड़े-बड़े बाँध लेता है।

अतः जो पुरुष देहाध्याससे छूटना चाहे उसे किसी प्रकारका अवैध आचरण नहीं करना चाहिये। वह अपने लिये निष्काम कर्मके द्वारा मोक्षका द्वार खोलें, स्वर्गादि पुष्प लोकोके प्रलोभनमें न फँसे। जो पुरुष एक बार धर्ममार्गपर पर रखकर फिर लोभवश काम-क्रोधके चक्करमें पड़कर अधर्म करने लगता है, वह अपने परिवारसहित नष्ट हो जाता है। कल्याणकामी पुरुषको रागके अधीन होकर शब्दादि विषयोंका सेवन नहीं करना चाहिये। विषयोंके कारण ही सत्त्वादि गुणोंके संसर्गसे हर्ष, क्रोध और विषादकी उत्पत्ति होती है। यह देह पाँच भूतोंका विकार है तथा सत्त्व, रज, तम तीन गुणोंसे युक्त है। इसमें यह किसकी स्तुति करे और किसे बुरा करे। शब्दादि विषयोंमें तो केवल सूखोंकी ही आसक्ति होती है। जैसे वनमें रहनेवाले संन्यासी मिष्टान्नादिकी इच्छा न करके शरीर-निर्वाहके लिये स्वादहीन रूखा-सूखा भोजन भी खा लेते हैं, इसी प्रकार संसारी (गृहस्थ) मनुष्यको भी परिश्रममें संलग्न होकर रोगीके औषधसेवनके समान केवल शरीर-निर्वाहके लिये परिमित एवं सात्त्विक भोजन करना चाहिये। उदारचित्त पुरुष सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तेज, उत्साह, क्षमा, धैर्य, बुद्धि, मन और तपके प्रभावसे समस्त विषयात्मक भावोंपर दृष्टि रखते हुए शान्तिकी इच्छासे इन्द्रियोंको काबूमें करे। ऐसा न होनेसे ही जीव अज्ञानवश सत्त्व, रज और तमसे मोहित होकर निरन्तर चक्रकी तरह घूमते रहते हैं; अतः विचार-शील पुरुष अज्ञानजनित दोषोंकी अच्छी तरह परीक्षा करे तथा उससे उत्पन्न हुए दुःख और अहंकारसे छूट जाय।

राजन् ! अब मैं तुम्हें सत्त्वादि गुणोंके कार्य बताता हूँ, सुनो। प्रसन्नता, हर्षजनित प्रीति, असंवेद, धैर्य और स्मृति—ये सत्त्वगुणके कार्य हैं। काम, क्रोध, प्रमाद, लोभ, मोह, भय, क्लान्ति, विषाद, शोक, अप्रसन्नता, मान, दर्प और अनार्यता—ये रजोगुण और तमोगुणके कार्य हैं। इन दोषोंके गौरव-लाघवका विचार करके फिर इस बातकी परीक्षा करे कि इनमेंसे मूल्यमें कौन दोष कितना-कितना बुरा हुआ है? इस तरह विचार करते हुए इन सभी दोषोंसे छूटनेका प्रयत्न करे।

सब प्रकारके दोषोंसे छूटनेके लिये ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्मचर्यका उपदेश

राजा युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! मनुष्यको किन दोषोंका मनसे त्याग करना चाहिये, किन्हें बुद्धिसे शिथिल करना चाहिये, कौन दोष बारंबार आ जाते हैं और

कौन मोहवश फलहीन-से जान पड़ते हैं? तथा बुद्धिमान् पुरुष अपनी बुद्धिसे युक्तिपूर्वक किन दोषोंके बलाबलका विचार करे?

भीष्मजी बोले—राजन् ! अपने मूल कारण अज्ञानके सहित दोषोंका नाश हो जानेपर पुरुष विमुद्धचित्त होकर संसारसे मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार छँनीकी धार लोहेकी जंजीरको काटकर नष्ट हो जाती है उसी प्रकार ध्यानसंस्कृत बुद्धि तमोगुणजनित दोषोंको नष्ट करके उनके साथ स्वयं भी शान्त हो जाती है। यद्यपि रजोगुण, तमोगुण और काम तथा मोहसे रहित शुद्ध सत्त्व—ये तीनों ही गुण देहके मूल कारण हैं तथापि आत्मवान् पुरुषके लिये ब्रह्मप्राप्तिका साधन तो सत्त्वगुण ही है। अतः संयमशील पुरुषको रजोगुण-तमोगुणसे दूर रहना चाहिये। इन दोनोंसे छूट जानेपर बुद्धि निर्मल हो जाती है। मनुष्य जब रजोगुणके अधीन रहता है तो तरह-तरहके अधर्मयुक्त कर्म करता है, उसमें दीनता आ जाती है तथा वह अर्थयुक्त भोगोंका सेवन करता है। तमोगुणके अधीन होनेपर वह लोभ और श्रोधजनित कर्मोंमें फँसा रहता है, हिंसामें उसका विशेष अनुराग हो जाता है और हर समय निद्रा-सन्नासे घिरा रहता है तथा सत्त्वगुणका आश्रय लेनेवाला पुरुष शुद्ध और सात्त्विक भावोंको ही देखता है। वह बड़ा निर्मल और कान्तिमान् होता है तथा उसमें धृद्धा और विद्याकी प्रधानता रहती है।

राजन् ! रजोगुण और तमोगुणसे मोहकी उत्पत्ति होती है और उससे क्रोध, लोभ, भय एवं दम्प उत्पन्न होते हैं। इन सबका नाश करनेसे ही मनुष्य शुद्ध होता है। ऐसा शुद्धचित्त पुरुष ही उस अक्षय, अविनाशी, सर्वव्यापक, अव्यक्त परमात्माका साक्षात्कार कर सकता है। उसीकी मायासे आवृत हो जानेपर मनुष्योंके ज्ञान और विवेकका नाश हो जाता है तथा वे अज्ञान और मोहके अधीन होकर श्रोधके चंगुलमें फँस जाते हैं। श्रोधसे काम उत्पन्न होता है और फिर लोभ, मोह, मान, दम्प एवं अहंकारका उन्मेष हो जाता है तब अहंकारसे कर्ममें प्रवृत्ति होने लगती है। इस प्रकार जब कर्म होने लगते हैं तो जन्म-मरणका निमित्त भी बन ही जाता है। तथा जिसे जन्म लेना है उसे शुक और शोणितका संयोग होनेपर मल-मूत्रसे भरे हुए, रक्तसे लयपय गर्भस्थानके रहनेकी नीचता भी आ ही जाती है। अतः वृष्टानसे तिरस्कृत और काम-श्रोधादिते बंधे हुए पुरुषको यदि उनसे परा पानेकी इच्छा हो तो वह प्रयत्नपूर्वक स्त्रियोंके संसर्गसे दूर रहे; क्योंकि स्त्रियाँ भयंकर कृत्याके समान हैं, ये अज्ञानी मनुष्योंको मोहमें डाल देती हैं। स्त्रीसे ही उसके रज और अपने वीर्यद्वारा संतानकी उत्पत्ति होती है। किंतु जिस प्रकार मनुष्य अपने अङ्गसे उत्पन्न हुई जूओंको त्याग देते हैं, उसी प्रकार अपने न होकर अपने कहलानेवाले इन पुत्रादिको भी त्याग देना चाहिये। इस देहसे ही स्वभावतः स्वेदके द्वारा

जूओंकी उत्पत्ति होती है और कर्मवशा वीर्यद्वारा पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः बुद्धिमान् पुरुषको तो दोनोंहीकी उपेक्षा करनी चाहिये। यह बात ध्यानमें रखो कि दुःखकी प्राप्ति तो शरीरके ग्रहणमात्रसे निश्चित है, किंतु उसकी वृद्धि शरीरमें अभिमान करनेसे होती है। अभिमानके त्यागसे दुःखका अन्त होता है और जिसका दुःख दूर हो जाता है, वही मुक्त है। राजन् ! अब मैं तुम्हें शास्त्रवृष्टिसे मोक्षका उपाय बताता हूँ। जो पुरुष तत्त्वज्ञानका अभ्यास करता है, वह परमगति प्राप्त कर लेता है। जितने प्राणी हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्योंमें द्विज और द्विजोंमें वेदज्ञ श्रेष्ठ है। वेदज्ञ ब्राह्मण समस्त प्रतीके आत्मा, सर्वज्ञ और सर्वदाता होते हैं। उन्हें परमार्थतत्त्वका पूर्ण निरचय होता है। नेत्रहीन पुरुष मार्गमें अकेला होनेपर जैसे तरह-तरहके दुःख पाता है वैसे ही ज्ञानहीन पुरुषको भी संसारमें अनेकों दुःख सहने पड़ते हैं। इसलिये ज्ञानी ही सबसे बढ़कर है।

याणी, शरीर और मनकी पवित्रता, क्षमा, सत्य, धैर्य और स्मृति—ये श्रेष्ठ गुण प्रायः सभी धर्मोंके मनुष्योंमें देखे जाते हैं; किंतु ब्रह्मचर्यको तो शास्त्रोंमें ब्रह्मका ही स्वरूप माना है। यह सब धर्मोंमें श्रेष्ठ है, इसके द्वारा पुरुष परम गति प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष इस व्रतका अच्छी तरह पालन करता है, उसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, मध्यम ब्रह्मचारीको स्वर्ग मिलता है और कनिष्ठ विद्वान् ब्राह्मणका जन्म पाता है। ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन व्रत है; इसका उपाय सुनो। ब्राह्मणको चाहिये कि जब रजोगुणकी वृत्ति बढ़ने लगे तो उसे रोक दे, स्त्रियोंकी बातें न सुने तथा उन्हें घस्त्रहीन अवस्थामें न देखे; क्योंकि यदि किसी प्रकार उनपर दृष्टि चली जाती है तो दुर्बलचित्त मनुष्यको कामका विकार हो जाता है। ब्रह्मचारीको यदि काम-विकार हो जाय तो उसे कृच्छ्रव्रत करना चाहिये और यदि स्वप्नमें वीर्य स्थलित हो तो जलमें गोता लगाकर तीन बार अघमर्षण मन्त्र जपना चाहिये। विवेकी पुरुषको इस प्रकार संयत और विवेकयुक्त चित्तसे अपने अन्तःकरणमें स्थित काम-विकारको नष्ट कर देना चाहिये। हृदयमें एक मनोबहू नामकी नाडी है, वह संकल्पके द्वारा सारे शरीरसे वीर्य खींचकर बाहर निकाल देती है। जिस प्रकार दूधमें मिले हुए घीको मयानीसे मथकर अलग किया जाता है, वैसे ही शरीरमें ध्याप्त वीर्य संकल्पको मयानीसे अलग हो जाता है। स्वप्नमें वस्तुतः स्त्रीसंसर्गका अभाव होनेपर भी केवल संकल्पसे ही मनोबहू नाडी वीर्यको बाहर निकाल देती है।

जो पुरुष यह जानते हैं कि वीर्यकी गति ही वषं

करनेवाली है, ये विरक्त और निर्दोष हो जाते हैं तथा उन्हें पुनः देहकी प्राप्ति नहीं होती। ये केवल देहनिर्वाहके लिये काम करते हैं। मनके द्वारा निश्चल अस्थायी स्थित हो जाते हैं और प्राणीको सुसुप्तावस्थामें ले जाकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करने हैं तथा जिन्हें ऐसा योग हुआ है कि विषयरूपमें

मन ही स्थित है, उन महात्माओंका प्रणयोपासनापरिशुद्ध मन प्रकाशपूर्ण और निर्मल हो जाता है। अतः मनको यशमें करनेके लिये मनुष्यको निष्काम काम करने चाहिये। इससे यह रजोगुण-तमोगुणसे छूटकर यथेच्छ गति प्राप्त कर सकता है।

मुक्तिके लिये प्रयत्न करनेका उपदेश

श्रीधर्मजी कहते हैं—सुप्रिच्छित्वा विषय-योगमें आसक्त रहनेवाले प्राणी महा दुःख योगमें रहते हैं। जो महात्मा जन्में आगत्य नहीं होने, ये ही परम गतिको प्राप्त होते हैं। यह जगत् जन्म, मृत्यु और घृष्टायतनाके दुःखों, नाना प्रकारके योगों तथा मार्गात्मक चिन्ताओंमें पूर्ण है—ऐसा समझकर युष्टिमान् पुण्यको मोक्षके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये। यह मन, प्राणी और शरीरमें पथिष्ठ रहकर अहंकारको त्याग दे तथा शान्ताचन, ज्ञानयान् एषं निष्काम होकर शिक्षायुज्जिते जीवन-निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे। जीवोंपर दया करने रहनेमें भी उनमें प्रति मनमें आसक्ति पैदा हो जाती है—ऐसा मोक्षकर दया और ममताकी भी उपेक्षा कर दे तथा यह जानकर संनोष कर ले कि सारा संसार अपने-अपने कर्मोंका ही फल भोगता है। मनुष्य शुभ या अशुभ कर्मोंका भी फल भोगता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है, इसलिये युष्टि और क्रियाके द्वारा सदा शुभ कर्मोंका ही आचरण करे। किसी भी जीवकी हिंसा न करना, सत्य भोजन, सब प्राणियोंके प्रति करुण होना, क्षमा करना और प्रसाधने यचना—इसने गुण जिन पुण्यमें मौजूब हों, यही सुखी होता है।

जो इस अहिंस आदिकी सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सुख्य और दुःखमें छुड़ानेवाला परम धर्म समझता है, यही सत्यज्ञ है और यही सुखी होता है। इसलिये युष्टिके द्वारा मनको समर्पित करके किसी भी प्राणीके प्रति राग-द्वेष न करे। किसीका अहित न सोचे। दुःख सहसुखी कामनाएँ न करे तथा ममत्व-पदार्थोंकी चिन्ता छोड़ दे और सफल प्रयत्न करके मनको ज्ञानके साधन (श्रवण-मनन-दि) में लगा दे। वैशान्त-शास्त्रियोंके श्रवण तथा सुदृढ़ प्रयत्नसे उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है। जो शुद्ध धर्मको वैशान्त और सत्ययत्न योग्यता चाहता है, उसके ऐसी बात कहनी चाहिये जो सत्य होनेके साथ ही हिंसा, परहिंसा, कपट, कटुता, क्रूरता और धृष्टता आदि दोषोंमें रहित हो। इस तरहकी प्राणी भी बहुत सी हैं। मायामें और साधन विषयों ही भोवती चाहिये।

संसारका सारा व्यवहार प्राणी ही बोधा हुआ है, इसलिये अच्छी प्राणी ही धीमे और यदि धैर्यवान् हो तो युष्टिके द्वारा मनको यशमें करके अपने किये हुए बुरे कर्मोंको भी जोगोंसे कह दे। (क्योंकि प्रकाशित कर देनेसे पापकी मात्रा घट जाती है।) रजोगुणसे प्रभावित हुई इन्द्रियोंकी प्रेरणासे मनुष्य सफल कर्मोंमें प्रयत्न होता है और इस लोभमें कष्ट भोगकर अन्तमें नरकगामी होता है; इसलिये मन, प्राणी और शरीरमें ऐसा काम करे जिससे अपनेको धर्म मिले।

जैसे (मुनिसके घरसे भागता हुआ) घोर जब घोरोंके मालका बोधा उत्तर फँकता है तो जहाँ उसे कुछ मिलनेकी आशा होती है उस दिशामें आसानीके साथ भाग जाता है; उसी प्रकार मनुष्य राजस और तामस कर्मोंको त्याग देनेपर शुभगति प्राप्त कर सकता है। जो सब प्रकारके संप्रहसे रहित, निरीह, एकान्तधारी, अल्पाहारी, तपस्वी और जितेन्द्रिय है, जिसके सम्पूर्ण क्लेश ज्ञाननिर्गते दग्ध हो गये हैं तथा जो योगानुष्ठानका प्रेमी और मनको अधीन रखनेवाला है, यह अपने त्विरचित्तों द्वारा निःसंवेह परब्राह्मणको प्राप्त कर लेता है। युष्टिमान् एषं धीर पुण्यको चाहिये कि यह युष्टिके अपने यशमें करे। फिर युष्टिके द्वारा मनको और मनके द्वारा विषयपरायण इन्द्रियोंको काबूमें रखे। इस प्रकार जब यह मनको यशमें करके इन्द्रियोंको अपने अधीन कर लेता है, उस समय उसकी इन्द्रियाँ प्रसन्न होकर ईश्वराभिमुख हो जाती हैं। फिर उनके साथ मनकी एकता होनेपर अन्तःकरणमें प्राप्तका प्रकाश छन जाता है।

अतः योगशास्त्रोक्त नियमोंके अनुसार आचरण करना चाहिये और योग-साधना करते समय जिस उपायसे भी चित्तवृत्ति त्विर हो सके, उसका पालन करते रहना चाहिये। अल्पके जाने, उड़ने, तिलकी खली, राग, जीकी लप्ती, सत्, सुख, फल—जो कुछ भी निक्षामें मिल जाय, उसीमें अपना निर्वाह करे। शेष, फल और नियमके अनुसार सात्त्विक आहार करे। साधन आरम्भ कर देनेपर उसे बीचमें न रोके। जैसे आम धीरे-धीरे तेज बने जाती है, उसी प्रकार

ज्ञानके साधनको शनैः-शनैः प्रदीप्त करे। ऐसा करनेसे ज्ञान सूर्यकी भाँति प्रकाशित होने लगता है तथा ज्ञानी पुरुष काल, जरा और मृत्युको जीतकर अक्षर, अविकारी, अमृत एवं सनातन ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है।

निष्कलङ्क ब्रह्मधर्मवतका पालन करनेकी इच्छा रखने-वाले पुरुषको स्वप्नके बोधोपर दृष्टि रखते हुए निद्राका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि स्वप्नमें जीवको प्रायः रजोगुण और तमोगुण घेर लेते हैं, ज्ञानका अभ्यास तथा तत्त्वका विचार करनेसे जागनेकी आवृत्ति होती है; तथा जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह तो सदा जाग्रत ही रहता है। इन्द्रियोंके थक जानेपर सबको नींद आती है, किंतु उस समय (यद्यपि इन्द्रियोंका लय हो जाता है तो) भी मन जाग्रत रहता है, इसीलिये तरह-तरहके सपने दिखायी देते हैं। जैसे जाग्रत-अवस्थामें काम-काजमें फंसे हुए मनुष्यके संकल्प मनोराज्यकी ही विभूति हैं, उसी प्रकार स्वप्नके भाव भी मनसे ही सम्बन्ध रखते हैं। कामनाओंमें आसक्त पुरुष असंख्य जन्मोंकी वासनाओंको स्वप्नमें अनुभव करता है। उसके मनमें जो-जो भाव छिपे होते हैं, उन सबको अन्तर्धामी जानता रहता है। पूर्वजन्मके कर्मोंके अनुसार यदि सत्त्व, रज या तम कोई भी गुण प्राप्त होता है तो उससे मनपर जैसे संस्कार पड़ते हैं, सूक्ष्ममूर्तोंकी प्रेरणासे स्वप्नमें वैसे ही आकार प्रकट हो जाते हैं। उस स्वप्नका दर्शन होते ही सात्त्विक, राजस और तामस गुण उसे सुख-दुःखका अनुभव करानेके लिये आ पहुँचते हैं। जाग्रत-अवस्थामें इन्द्रियोंके द्वारा हृदयमें जो-जो संकल्प उठते हैं, स्वप्नमें भी यह मन उसी-उसी संकल्पको प्रसन्नताके साथ पूर्ण होता देखा करता है। आत्मके ही प्रभावसे आकाश आदि सम्पूर्ण भूतोंमें मनको पहुँच होती है, उसे जानी भी दकावट नहीं होती। अतः आत्मको अवश्य अज्ञाना चाहिये; क्योंकि आकाश आदि सभी देवता आत्मामें ही स्थित हैं। तत्प्राप्तसे मनके अज्ञानाद्यकारका नाश हो जाता है, फिर उसमें सूर्यकी भाँति शान्तप्रकाश फैल जाता है। देवताओंने तपका आश्रय लिया है और असुरोंने तपस्यामें विघ्न डालनेवाले दम्भ-दप आदि तम (अज्ञान) को अपनाया है। किंतु यह ब्रह्मतत्त्व गुणप्रधान देवता और असुरोंसे गुप्त है, उन्हें इसका पता नहीं है; क्योंकि तत्त्ववेत्ता पुरुष इसे ज्ञानस्वरूप बतलाते हैं। सत्त्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण—ये ही देवता और असुरोंके गुण हैं। इनमें सत्त्वगुण तो देवताओंका है और शेष दोनों गुण असुरोंके हैं। ब्रह्म इन सभी गुणोंसे अतीत, अक्षर, अमृत, स्वयंप्रकाश और ज्ञानस्वरूप है। शूद्र अन्तःकरणवाले महात्मा ही उसे जान पाते हैं। जो जानते हैं, वे परम गतिकी

प्राप्त हो जाते हैं। तत्त्वदर्शी महापुरुष ही ब्रह्मके विषयमें कुछ युक्तियुक्त बातें कह सकते हैं अथवा मन और इन्द्रियोंकी विषयोंकी ओरसे हटाकर एकाग्र होनेसे भी उस अक्षर ब्रह्मका ज्ञान होता है।

जो मनुष्य परम ऋषि भगवान् नारायणके बताये अनुसार ध्यस्त और अध्येत तत्त्वको नहीं जानता, उसे परब्रह्मका ज्ञान नहीं है। ध्यस्त (स्थूल ज्ञात) मृत्युके मुखमें पड़नेवाला है और अध्येत अमृतपद है। प्रजापति ब्रह्माजीने प्रवृत्तिरूप धर्मका उपदेश दिया है; किंतु प्रवृत्ति-धर्मके पालनसे संसारमें पुनः जन्म लेना पड़ता है, अतः यह पुनरावृत्तिरूप है और निवृत्ति-धर्मसे परम गति प्राप्त होती है, इसलिये वह मोक्षस्वरूप है। शुभाशुभ कर्मोंके ज्ञाता, निवृत्तिपरायण एवं सदा तत्त्वचिन्तनमें लगे रहनेवाले मुनियोंकी ही उस उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार विचारशील पुरुषको चाहिये कि वह पहले अध्येत प्रकृति और पुरुष (क्षेत्रज्ञ) को जाने; फिर इन दोनोंसे श्रेष्ठ जो परम महान् ईश्वर-तत्त्व है, उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करे। प्रकृति त्रिगुणमयी है। घृष्टि करना उसका स्वभाव है। क्षेत्रज्ञका स्वरूप इसके विपरीत है। वह स्वयं गुणोंसे रहित और प्रकृतिके कार्योंका द्रष्टा है। जीव और ईश्वर दोनों चेतन हैं। गुणादि निद्रासे रहित होनेके कारण ये इन्द्रियोंके विषय नहीं होते। दोनों ही स्थूल पदार्थोंसे सर्वथा भिन्न हैं। प्रकृति और पुरुषके संयोगसे चराचर जगत्की उत्पत्ति होती है। जीव इन्द्रियोंसे कर्म करनेके कारण कर्ता कहलाता है।

जो दिव्यसम्पत्ति अर्थात् ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करना चाहे, उस पुरुषको अपना मन शूद्र रखना चाहिये और शरीरसे कठोर नियमोंका पालन करते हुए निष्काम तपका अनुष्ठान करना चाहिये। आन्तरिक तप चैतन्यमय प्रकाशसे युक्त है, उससे तीनों लोक व्याप्त हैं। सूर्य और चन्द्रमा भी तपसे ही आकाशमें प्रकाशित हो रहे हैं। लोकमें तप शब्द विशेष प्रसिद्ध है। तपका फल है प्रकाश और ज्ञान। रजोगुण और तमोगुणका नाश करनेवाला निष्काम कर्म ही तप है। ब्रह्मसंयं और अहिंसा शारीरिक तप है। वाणी और मनका संयम मानसिक तप कहलाता है।

वैदिक विधिको जानने और उसके अनुसार चलनेवाले द्विजातियोंका ही अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। ऐसे अन्नका नियमपूर्वक आहार करनेसे रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाला पाप शान्त हो जाता है तथा सायककी इन्द्रियाँ विषयोंकी ओरसे विरक्त हो जाती हैं। इसलिये भिसामें उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिये, जितना जीवन-रक्षाके लिये



शरीरको इन बन्धु-बान्धवों तथा स्त्री-पुत्रादिते क्या लाभ है ? यह सोचकर जो मनुष्य इन सबको क्षणभरमें त्यागकर चल देता है, उसे मृत्युके बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और धामु—ये सदा इस शरीरकी रक्षा करते रहते हैं—इस बातको अच्छी तरह समझ लेनेपर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है ? जो एक दिन मोतके मुखमें पड़नेवाला है, उस शरीरको सुख कहाँ ? पञ्चशिखका यह उपदेश, जो भ्रम और बञ्चनासे रहित, सर्वथा निर्दोष और आत्माका ज्ञान करानेवाला था, सुनकर राजा जनकको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुनः प्रश्न करनेका विचार किया।

जनकने पूछा—मगवन् ! ज्ञानीको मृत्युके बाद फिर संसारकी प्राप्ति होती है या नहीं ? यदि उस समय उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती तो ज्ञान और अज्ञानका फल ही क्या होगा ?

ऐसा प्रश्न सुनकर ज्ञानी महात्मा पञ्चशिखको निरचय हो गया कि राजा जनककी बुद्धिपर अन्धकार छा रहा है; इन्हें आत्माके नाशका भ्रम-सा हो गया है, इसीलिये ये बहुत धबराये हुए हैं। उनकी यह अवस्था जानकर ये महापि उन्हें समझाते हुए कहने लगे—'राजन् ! मृत्युवापस्यामें आत्माका न तो नाश होता है और न यह किसी विशेष आकारमें ही

परिणत होता है। यह जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला संघात है, यह भी शरीर, इन्द्रिय और मनका समूहमात्र है। यद्यपि ये पृथक्-पृथक् हैं, तो भी एक दूसरेका आश्रय लेकर कर्ममें प्रवृत्त होते हैं। प्राणियोंके शरीरमें उपादानके रूपमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँच धातु हैं। ये स्वभावसे ही एकत्र होते और बिलग हो जाते हैं। इन्हीं पाँच तत्त्वोंके मिलते नाना प्रकारके देहोंका निर्माण हुआ है। आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा—ये पाँच इन्द्रियाँ कहलाती हैं; इनकी उत्पत्तिका कारण मन है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द तथा मूलं द्रव्य—ये छः गुण जीवकी मृत्युके पहलेतक इन्द्रियजन्य ज्ञानके साधक होते हैं। इनके साथ इन्द्रियोंका संयोग होनेपर ही भिन्न-भिन्न विषयोंका ज्ञान होता है।

जो लोग गुणोंके संघातरूप इस शरीरको ही आत्मा समझ लेते हैं, उन्हें मिथ्याज्ञानके कारण अनन्त दुःखोंकी प्राप्ति होती है और उनकी परम्परा कभी शान्त नहीं होती। इसके विपरीत जिनकी दृष्टिमें यह दृश्य प्रपञ्च अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनकी इसके प्रति न ममता होती है न अहंता; फिर उन्हें दुःख कैसे प्राप्त हो ? क्योंकि अब तो दुःखोंके लिये कोई आधार ही नहीं रह जाता। अब मैं तुम्हें वह शास्त्र सुना रहा हूँ, जिसमें त्यागकी प्रधानता है। ध्यान देकर सुनो। यह तुम्हारे मोक्षमें सहायक होगा। जो लोग मुझितके लिये प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिये कि सकाम कर्म और द्रव्य आदिका त्याग करें। जो लोग त्याग किये बिना धर्म ही विनीत होनेका दावा करते हैं, उन्हें बलेश-पर-बलेश उठाने पड़ते हैं। शास्त्रोंमें द्रव्यका त्याग करनेके लिये यज्ञ आदि कर्म, भोगका त्याग करनेके लिये व्रत, दैहिक सुखोंके त्यागके लिये तप और सब कुछ त्यागनेके लिये योगके अनुष्ठानकी आज्ञा दी गयी है। यही त्यागजी सीमा है। सर्वस्वत्यागका यह एकमात्र मार्ग ही दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेनेवालोंको दुर्गति भोगनी पड़ती है।

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन—ये सब मिलकर ग्यारह इन्द्रियाँ हैं; इन सबको मनरूप जानकर बुद्धिके द्वारा तुरंत इनका त्याग कर देना चाहिये। ध्वष करते समय शीघ्ररूपी इन्द्रिय, शब्दरूप विषय तथा मनरूपी कर्ता—ये तीन उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा विषयानुभव करते समय विषय, इन्द्रिय और मन—इन तीनोंके समूहको उपस्थिति रहती है। इस तरह तीन-तीनके पाँच समूदाय हैं, जिनसे विषयोंका ग्रहण होता

है। ये कर्ता, कर्म और करणरूपी तीन प्रकारके भाव वारी-यारीसे उपस्थित होते हैं। इनमेंसे एक-एकके सात्त्विक, राजस और तामस—तीन-तीन भेद होते हैं। अनुभव भी तीन प्रकारके ही हैं, जिनमें हर्ष-शोक आदि सबका समावेश है। हर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और चित्तकी शान्तिका होना सात्त्विक गुणका लक्षण है। असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा अमर्ष—ये किसी कारणसे हों या अकारण, रजोगुणके चिह्न हैं। अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और आलस्य—ये किसी तरह भी क्यों न हों, तमोगुणके ही नाना रूप हैं।

'शब्दका आधार श्रोत्रेन्द्रिय है और श्रोत्रेन्द्रियका आधार आकाश है; अतः वह आकाशरूप ही है। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी क्रमशः स्पर्श, रूप, रस और गन्धका आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतोंके स्वरूप हैं। इन सबका अधिष्ठान है मन; इसलिये सब-के-सब मनःस्वरूप हैं; क्योंकि जब सब इन्द्रियोंका कार्य एक समय प्रारम्भ होता है, तो उन सबके विषयोंका एक साथ अनुभव करनेके लिये मन ही सबसे अनुगत रूपसे उपस्थित रहता है; अतः मनको ग्यारहवीं इन्द्रिय कहा गया है और बुद्धि बारहवीं मानी गयी है।

'इस प्रकार समस्त प्राणी अनादि अविद्याके कारण स्वभावतः घ्यवहारपरायण हो रहे हैं। ऐसी दशामें ज्ञानद्वारा अविद्याकी निवृत्तिमात्र होनेसे आत्माके नाशका क्या प्रसंग है? सनातन आत्माका नाश हो ही कैसे सकता है? जैसे नद और नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपने व्यक्तित्व (रूप) और नामको त्याग देती हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने परिच्छिन्नरूप और नामको त्यागकर महत्स्वरूपमें प्रतिष्ठित होते हैं—यही उनका मोक्ष है। उस अवस्थामें मृत्युके बाद जब उपाधिका त्याग हो जाता है, तो जीवकी कोई विशेष रांता कैसे रह सकती है।

'जो इस मोक्षविद्याको जानकर सावधानीके साथ आत्म-त्त्वका अनुसंधान करता है, वह जलसे कमलके पत्तेकी भांति कर्मके अनिष्ट फलोंसे कभी लिप्त नहीं होता। संतानोंके प्रति आसक्ति और भिन्न-भिन्न देवताओंकी प्रसन्नताके लिये सकाम यशोंका अनुष्ठान—ये सब मनुष्यके लिये नाना

प्रकारके सुदृढ़ बन्धन-हैं। जब वह इन बन्धनोंसे छूटकर सुख-दुःखकी चिन्ता छोड़ देता है; उस समय लिङ्गशरीरके अभिमानका त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति (मुक्ति) प्राप्त कर लेता है। श्रुतिके महावाक्योंका विचार और शास्त्रमें बताये हुए मङ्गलमय (शम-दमादि) साधनोंका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य जरा तथा मृत्युके भयसे रहित होकर सुखसे सोता है। जब पुण्य और पापका क्षय तथा उनसे मिलनेवाले सुख-दुःख आदि फलोंका नाश हो जाता है, उस समय सब वस्तुओंकी आसक्तिसे रहित पुरुष आकाशके समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्माका साक्षात्कार कर लेता है। जैसे मकड़ी जाला तानकर उसपर चक्कर लगाती रहती है, किंतु उन जालोंका नाश हो जानेपर एक स्थानपर स्थित हो जाती है, उसी प्रकार जीव भी कर्मजालमें पड़कर भटकता रहता है और उससे छूटनेपर दुःखसे रहित हो जाता है। जैसे साँप अपनी फेंचुल त्यागकर उसकी उपेक्षा करके चल देता है, उसी प्रकार जो शरीरमें आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनापनका अभिमान त्याग देता है, वह दुःखसे छूट जाता है। जिस प्रकार वृक्षके प्रति आसक्ति न रखनेवाला पंछी जलमें गिरते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, उसी तरह जो लिङ्गशरीरकी आसक्तिको छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुःख दोनोंका त्याग करके उत्तम गतिको प्राप्त होता है।'

भीष्मजी कहते हैं—आचार्य पञ्चशिखके बताये हुए इस अमृतमय ज्ञानको सुनकर राजा जनक एक निश्चित सिद्धान्तपर पहुँच गये तथा सब प्रकारके शोकोंका त्यागकर वे बड़े सुखसे रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ और हो गयी। एक बार उन्होंने मिथिलानगरीको आगसे जलती देखकर स्वयं यह उद्गार प्रकट किया कि 'इस नगरके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जलता।'

राजन्! इस अध्यायमें मोक्ष-तत्त्वका निर्णय किया गया है; जो सदा इसका स्वाध्याय और चिन्तन करता रहता है, वह उपद्रवोंका शिकार नहीं होता, दुःख तो उसके पास कभी फटकने नहीं पाते; तथा जिस प्रकार राजा जनक पञ्चशिखके समागमसे इस ज्ञानकी पाकर मुक्त हो गये थे, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त करता है।

दमकी महिमा तथा व्रत और तपका वर्णन, ब्रह्माद्वारा इन्द्रको उपदेश

युधिष्ठिरने पूछा—भारत ! मनुष्य क्या उपाय करनेसे सुखी होता है ? और क्या करनेसे वह सिद्धकी भांति संसारमें निर्भय होकर विचरता है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! वेदार्थका विचार करनेवाले बृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णोंके लिये और विशेषतः ब्राह्मणके लिये मन और इन्द्रियोंके संयमरूप 'दम' की ही प्रशंसा करते हैं। जिसने दमका पालन नहीं किया है, उसे अपने कर्मोंमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती; क्योंकि क्रिया, तप और सत्य—इन सबका आधार 'दम' ही है। दमसे तेजकी वृद्धि होती है। दम परम पवित्र बताया गया है। दमनशील पुरुष पाप तथा भयसे रहित होकर 'महद्' पदको प्राप्त होता है। 'दम' का पालन करनेवाला मनुष्य सुखसे सोता, सुखसे जागता तथा सुखसे संसारमें विचरता है और उसका मन भी प्रसन्न रहता है। दमसे ही तेजको धारण किया जाता है, दमनशील पुरुष ही रजोगुणपर विजय पाता है तथा वही भीतरके काम-क्रोध आदि शत्रुओंको अपनेसे युक्त देख सकता है। जिनके मन और इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उन्हें सिंह व्याघ्र आदि मांसाहारी जन्तुओंकी तरह समझकर सब प्राणी उनसे डरते रहते हैं। ऐसे उद्दष्ट मनुष्योंकी उच्छृङ्खल प्रवृत्तिको रोकनेके लिये ही ब्रह्माजीने राजाकी सृष्टि की है। चारों आश्रमोंमें दमको ही श्रेष्ठ माना गया है। सब आश्रमोंके धर्मोंका पालन करनेसे जो फल मिलता है, दमके पालनसे उससे भी अधिक फल मिलता है। अब मैं उन गुणोंका वर्णन करता हूँ जिनकी उत्पत्तिमें दम ही कारण है। कृपणताका अभाव, आवेश न आना, संतोष, श्रद्धा, क्रोधका न आना, सरलता, अधिक ब्रह्मवाद न करना, अभिमानका त्याग करना, गुरुपूजा, किसीके गुणोंमें दोषदृष्टि न करना, जीवीं पर दया करना, किसीकी चुगली न करना तथा लोगोंकी शिकायत, सिध्दाभाषण, निन्दा और स्तुतिसे ब्रह्म रहना, सबकी भलाईकी इच्छा रखना तथा भविष्यमें आनेवाले सुख-दुःखकी चिन्ता न करना—ये सब गुण दमके पालनसे प्रकट होते हैं। जितेन्द्रिय पुरुष किसीके साथ वैर नहीं करता, उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है। वह निन्दा और स्तुतिमें समान भाव रखनेवाला, सदाचारी, शीलवान्, प्रसन्नचित्त, धैर्यवान् तथा दोषोंका दमन करनेमें समर्थ होता है। दमनशील पुरुष समस्त प्राणियोंको दुर्लभ यस्तुएँ देकर—दूसरोंको सुख पहुँचाकर स्वयं प्रसन्न और सुखी होता है। वह सबके हितमें लगा रहता है और किसीसे

द्वेष नहीं करता। वह बहुत बड़े जलाशयकी भांति गम्भीर होता है और उसके मनमें कभी क्षोभ नहीं होता। वह सदा शान्तानन्दसे तृप्त एवं प्रसन्न रहता है। जो समस्त प्राणियोंसे निर्भय है तथा जिससे सम्पूर्ण प्राणी निर्भय हो गये हैं, वह दमनशील एवं युद्धिमान् पुरुष सबके नमस्कारके योग्य समझा जाता है। जो बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर हर्षसे फूल नहीं उठता और संकट पड़नेपर जिसे शोकके कारण धबराहट नहीं होती, वह द्विज स्थिरबुद्धिवाला तथा जितेन्द्रिय कहलता है। जो शास्त्रका ज्ञाता, वैदिक कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला, सदाचारी और पवित्र है तथा सर्वदा दमका पालन करता रहता है, उसे महान् फलकी प्राप्ति होती है। जिनका अन्तःकरण दूषित है, वे लोग दोषदृष्टिका अभाव, क्षमा, शान्ति, संतोष, मीठे वचन बोलना, सत्यभाषण, दान तथा उद्योगशीलता आदि गुणोंको नहीं अपनाते। उनमें तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तथा डींग हाँकना आदि दुर्गुण ही रहते हैं; इसलिये उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणको चाहिये कि वह जितेन्द्रिय होकर काम और क्रोधको वशमें करे, ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ घोर तपस्यामें संलग्न हो जाय और मृत्यु-कालकी प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वन्द्व होकर संसारमें विचरे।

युधिष्ठिरने पूछा—महाराज ! संसारके मनुष्य प्रायः उपवास करनेकी ही तप कहते हैं। क्या वास्तवमें यही तप है ? या उसका और कोई स्वरूप है।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! गंवारलोग जो एक महोना या पन्द्रह दिनोंतक उपवास करके उसे तप मानते हैं, उससे आरम्भज्ञानमें बाधा पहुँचती है; इसलिये श्रेष्ठ पुरुषोंकी रायमें वह तप नहीं है। उनके मतमें तो त्याग और विनय ही उत्तम तप हैं; इनका पालन करनेवाला मनुष्य नित्य उपवासी और सतत ब्रह्मचारी कहा गया है। त्यागी और विनयी ब्राह्मण ही मुनि तथा देवता माना जाता है। अतः वह कृद्भ्यके साथ रहकर भी सदा धर्मपालनकी इच्छा रखे और नित्य जाग्रत् (सावधान) रहे। मांस कभी न खाय। सदा पवित्र रहे। यज्ञसे बचे हुए अमृतमय अन्नका भोजन तथा देवता और अतिथियोंकी पूजा करे। उसे सदा यज्ञ-शिष्ट अन्नका भोषता, अतिथिसेवाका वती, श्रद्धालु और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाला होना चाहिये।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! मनुष्य नित्य उपवासी, सतत ब्रह्मचारी, यज्ञशिष्ट अन्नका भोषता तथा अतिथिसेवाका व्रती कैसे होता है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! जो सिर्फ सवेरे और शामको ही भोजन करता है, बीचमें कुछ नहीं खाता, उसे नित्य उपवास करनेवाला ही समझना चाहिये। जो द्विज केवल श्रातु-स्नानके समय ही पत्नीके साथ समागम करता, सत्य धोलाता तथा ज्ञानमें स्थित रहता है, वह सदा ब्रह्मचारी ही है। नित्य वान करनेवाला पवित्र माना जाता है। जो बिनमें कभी नहीं सोता, उसे सदा जागनेवाला ही समझना चाहिये। जो सदा भरण-पोषण करनेके योग्य पिता-माता यादि व्यक्तियों तथा अतिथियोंके भोजन कर लेनेपर ही खाता है, वह केवल अमृत भोजन करता है। अपने इस नियमके द्वारा वह स्वर्गलोकपर विजय पाता है। शास्त्रज्ञ पुरुष उसीको विद्यसायी (यज्ञशिष्ट अन्नका भोक्ता) कहते हैं। ऐसे पुरुषोंको अक्षयलोक प्राप्त होते हैं, वे ब्रह्माजीके साथ उनके धाममें निवास करते हैं तथा अप्सराओंसहित समस्त देवता उनकी परिभ्रमा किया करते हैं। देवता और पितरोंके साथ रहकर वे पुत्र-पौत्रोंसहित आनन्द भोगते हैं। उन्हें बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! इस संसारमें जो भी शुभ या अशुभ कर्म होता है, वह पुरुषको उसके सुख-दुःखरूप फल भोगनेमें लगा ही देता है। परंतु पुरुष उस कर्मका कर्ता है या नहीं—इस विषयमें मुझे संदेह है। अतः मैं आपके मुपसे इसका ठीक-ठीक समाधान सुनना चाहता हूँ।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें जानकारलोग इन्द्र और प्रह्लादके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। प्रह्लादजीके मनमें किसी विषयकी आसक्ति नहीं थी। उनके पाप धूल गये थे। जडता और अहंकारका तो उनमें नाम भी न था। वे धर्मकी मर्यादाका पालन करते और शुद्ध सत्त्वगुणमें स्थित रहते थे। निन्वास्तुतिको समान समझते, मन-इन्द्रियों पर काबु-ररते और एकान्त घरमें निवास करते थे। उन्हें चराचर प्राणियोंको उत्पत्ति और नाशका ज्ञान था। अप्रिय हो जानेपर वे क्रोध नहीं करते और प्रियकी प्राप्ति होनेपर अधिक हर्ष नहीं मानते थे। मिट्टीके डेले और सुवर्णमें उनकी समान दृष्टि थी। वे आत्माका कल्याण करनेवाले ज्ञानयोगमें स्थित और धीर थे। उन्हें परमात्मतत्त्वका निश्चय हो गया था। ऐसे सत्यज्ञ, समदर्शी तथा जितेन्द्रिय प्रह्लादजीको एकान्तमें बंटे देख इन्द्र उनकी बुद्धिको जाननेकी इच्छासे उनके पास जाकर बोले—'वैश्वराज ! जिन गुणोंको पाकर कोई भी मनुष्य संसारमें सम्मानित हो सकता है, उन सबको मैं तुम्हारे भीतर स्थिर देखता हूँ। तुम्हें आत्मतत्त्वका ज्ञान है, इसलिये पूछता हूँ; चताओ, तुम्हारे मतमें कल्याणका

सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है ? तुम रस्सियोंसे बाँधे गये, राज्यसे भ्रष्ट हुए, शत्रुओंके वशमें पड़े और राज्यलक्ष्मीसे हीन हो गये; इस प्रकार शोचनीय स्थितिमें पड़ जानेपर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता ? प्रह्लाद ! अपने ऊपर संकट देखकर भी तुम निश्चिन्त कैसे हो ? तुम्हारी यह स्थिति आत्मज्ञानके कारण है या धर्मके ?' इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर निश्चित सिद्धान्त रखनेवाले धीरबुद्धि प्रह्लादजीने अपने ज्ञानका वर्णन करते हुए मधुर वाणीमें कहा।

प्रह्लादजी बोले—जो प्राणियोंकी प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं जानता, उसीको अविद्येके कारण मोह होता है, ज्ञानीको कभी मोह नहीं होता। सब तरहके भाव और अभाव स्वभावसे ही आते-जाते रहते हैं; उनके लिये पुरुषका कोई प्रयत्न नहीं होता और प्रयत्नके अभावमें पुरुष कर्ता नहीं हो सकता, फिर भी उसे कर्तापनका अभिमान हो जाता है। जो आत्माको शुभ या अशुभ कर्मोंका कर्ता मानता है, उसकी बुद्धिको तत्त्वका ज्ञान न होनेके कारण में दोषसे आवृत समझता हूँ। इन्द्र ! यदि पुरुष ही कर्ता होता तो वह अपने कल्याणके लिये जो कुछ भी करता, वह सब अवश्य सिद्ध हो जाता, उसे अपने प्रयत्नमें कभी हार नहीं खानी पड़ती। किन्तु देखा यह जाता है कि इष्टके लिये प्रयत्न करनेवालोंको प्रायः अनिष्टकी प्राप्ति होती है और इष्टकी प्राप्तिसे वे वञ्चित रह जाते हैं। अतः पुरुषका प्रयत्न कहाँ रहा ? कितने ही प्राणियोंकी किसी प्रयत्नके बिना ही हमलोग अनिष्टकी प्राप्ति और इष्टका निवारण होते देखते हैं। यह बात स्वभावसे ही होती है। कितने ही सुन्दर और बुद्धिमान् पुरुष भी कुरूप और गँवार मनुष्योंसे धन पानेकी आशा करते दिखायी देते हैं। जब शुभ और अशुभ सभी प्रकारके गुण स्वभावकी ही प्रेरणासे प्राप्त होते हैं तो किसीको भी उनपर अभिमान करनेका क्या कारण है ? मैं तो निश्चित रूपसे यही मानता हूँ कि स्वभावसे ही सब कुछ मिलता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती। यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फलकी प्राप्ति होती है, उसमें लोभ कर्मको ही कारण मानते हैं; अतः मैं तुमसे कर्मके विषयका पूर्णतया वर्णन करता हूँ, सुनो। सम्पूर्ण कर्म स्वभावको ही लक्षित करनेवाले हैं। जो कार्योंको तो जानता है, किन्तु उनको करनेवाली प्रकृतिको नहीं जानता, उसीको अविद्येके कारण मोह होता है। जो इस बातको समझता है। उसे मोह नहीं होता। सभी भाव स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं, इस बातको जो ठीक-ठीक जानता है, उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है ?

इन्द्र ! मैं धर्मकी पुरी-पुरी विधि तथा सम्पूर्ण भूतोंकी

अनित्यताको जानता हूँ। इसलिये सबको गामावान् समझकर किसीके लिये शोक नहीं करता। ममता, अहंकार तथा कामनाओंका त्याग कर सब प्रकारके बन्धनोंसे रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असङ्ग रहकर प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाशको देखता रहता हूँ। जो मन और इन्द्रियोंको अधीन करके तृष्णा और कामनाको छोड़ चुका है और सदा अविनाशी आत्मापर ही दृष्टि रखता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। प्रकृति और उसके कार्योंके प्रति मेरे मनमें न राग है, न द्वेष। न तो मैं किसीको अपना द्वेषी समझता हूँ और न अत्यन्त आत्मीय ही मानता हूँ। मुझे ऊपर (स्वर्गकी), नीचे (पातालकी) तथा बीचके लोक (मर्त्यलोक) की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान, विज्ञान अथवा ज्ञेयके लिये भी मैं अभिलाषा नहीं करता।

इन्द्रने कहा—प्रह्लाद ! जिस उपायसे ऐसी बुद्धि और इस तरहकी शान्ति प्राप्त होती है, उसे पूछता हूँ, बतानो।
प्रह्लादने कहा—इन्द्र ! सरलता, सावधानी, बुद्धिकी निर्मलता, चित्तकी स्थिरता तथा बड़े-बूढ़ोंकी सेवा करनेसे पुरुषको महत् पदकी प्राप्ति होती है। इन गुणोंको अपनानेपर स्वभावसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, स्वभावसे ही शान्ति मिलती है तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब स्वभावसे ही प्राप्त होता है।

दंतपराज प्रह्लादके इस उत्तरको सुनकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर प्रह्लादके वचनोंको प्रशंसा की। इतना ही नहीं, त्रिभुवनपति इन्द्रने दंतपराजका पूजन भी किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम—स्वर्गलोकको गये।

इन्द्रका नमुचि और बलिके साथ संवाद—कालकी महिमाका वर्णन

भोष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इसी विषयमें एक और पुराने इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। एक समयकी बात है, इन्द्र नमुचि नामक दंत्यके पास जाकर कहने लगे—'नमुचि ! तुम रस्सियोंसे बांधे गये, राज्यसे भ्रष्ट हुए, शत्रुओंके वशमें पड़े और राज्यलक्ष्मीसे हीन हो गये। इस प्रकार शोकका अवसर आनेपर भी तुम्हें शोक नहीं होता—यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है !'

नमुचिने कहा—इन्द्र ! शोक करनेसे शरीरको कष्ट होता है और जब प्रसन्न होते हैं, फिर शोक क्यों किया जाय ? शोकसे दुःख दूर करनेमें कोई सहायता भी तो नहीं पहुँचती। इसलिये मैं सबको नाशवान् समझकर किसी वस्तुके लिये शोक नहीं करता। संताप करनेसे रूप, कान्ति, आयु और धर्म सबका नाश ही होता है। अतः सनसद्वार पुरुषको वैमनस्यके कारण आये हुए दुःखकी चिन्ता छोड़कर मन-ही-मन अपने कल्याणको उपाय सोचना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि पुरुष जब कल्याणमें मन लगाता है, तभी उसके सम्पूर्ण अर्थ सिद्ध होते हैं। जगत्का शासन करनेवाला एक ही है, दूसरा नहीं; वही गर्भमें रहनेवाले प्राणीका भी शासन करता है। उसकी जैसी प्रेरणा होती है, उसीके अनुसार मैं भी कार्य करता हूँ। पुरुषको जो वस्तु जिस प्रकार प्राप्त होनेवाली होती है, वह उस प्रकार मिल ही जाती है। जिस वस्तुकी जैसी होनहार होती है, वह वैसे ही होती है। विद्याला जीवको जिम-जिस गर्भमें डालता है, वहाँ उसे रहना पड़ता

है; वह अपनी इच्छाके अनुसार कहीं नहीं रह सकता। अपने ऊपर जो वह अवस्था आ पड़ी है, ऐसी ही होनहार थी—इस तरहका भाव रखकर जो उस परिस्थितिको सहर्ष स्वीकार करता है, उसे कभी मोह नहीं होता। बारी-बारीसे सबपर कष्ट पड़ता है, उसके लिये किसीपर दोष नहीं लगाया जा सकता। दुःख पानेका कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान परिस्थितिसे द्वेष करके अपनेको उसका कर्ता मान बैठता है। ऋषि, देवता, बड़े-बड़े अमुद, वैदिक ज्ञानमें बड़े हुए पुरुष तथा वनवासी मुनि—इनमेंसे कोन है, जिसपर आपत्ति नहीं आती। किन्तु जिन्हें सत्-असत्का ज्ञान है, वे मोहमें नहीं पड़ते। विद्वान् पुरुष कभी क्रोध नहीं करते, किसी विषयमें आसक्त नहीं होते, दुःख पानेपर खेद नहीं करते, सुख मिलनेपर हर्षके मारे फूल नहीं उठते तथा आर्थिक कठिनाई या संकटके समय भी शोकप्रसन्न नहीं होते; वे हिमालयकी तरह स्वभावसे ही अविचल होते हैं। जिसे उत्तम अर्थसिद्धि मोहमें नहीं डालती, कभी संकट पड़नेपर भी जो धर्मको नहीं छोड़ता और सुख, दुःख तथा दोनोंके बीचकी अवस्थाका भी समानभावसे सेवन करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है। जो धर्मके तत्त्वको समझकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो वस्तु नहीं मिलनेवाली होती है, उसको कोई मन्त्र, दल, परानम, मुक्ति, पुरुषार्थ, शील, सदाचार और धन-सम्पत्तिसे भी नहीं पा सकता, फिर उसके लिये शोक क्यों किया

प्रारब्धमें जितने सुख और दुःखका भोग बड़ा है, उतना ही वह पाता है, जहाँ जानेका प्रारब्ध है, वहाँ जाता है तथा जो कुछ उसे पाना है उसीको प्राप्त करता है—यह समझकर जो कभी मोहित नहीं होता और सब प्रकारके दुःखोंमें निश्चिन्त रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है।

युधिष्ठिरने पूछा—मरतश्रेष्ठ ! जो मनुष्य बन्धु-बान्धवों अथवा राज्यका नाश हो जानेसे घोर संकटमें पड़ गया हो, उसके कल्याणका क्या उपाय है ? संसारमें आपसे बढ़कर कोई वक्ता नहीं है; इसीलिये यह बात आपसे पूछ रहा हूँ।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! जिसके स्त्री-पुत्र मर गये हों, सुख छिन गया हो तथा धन भी नष्ट हो गया हो और इन कारणोंसे जो कठिन विपत्तिमें फँस गया हो; उसका तो धर्म धारण करनेमें ही कल्याण है। तात ! जो बुद्धिमान् सदा सात्त्विक वृत्तिका सहारा लिये रहता है, उसीको ऐश्वर्य और धर्मकी प्राप्ति होती है तथा वही कार्य करनेमें कुशल होता है। इसके विषयमें भी पुनः एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण देता हूँ, जो बलि और इन्द्रके संवादके रूपमें है।

देवासुर-संग्राममें दैत्य और दानवोंका भयंकर संहार हो चुका था। वामनरूपधारी भगवान् विष्णुने अपने परोंसे तीनों लोकोंको नापकर अधिकारमें कर लिया था। सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले इन्द्र देवताओंके राजा थे। चारों वर्णोंके लोग अपने-अपने धर्ममें स्थित थे। देवताओंकी खूब पूजा होती थी। त्रिभुवनका अभ्युदय हो रहा था और सबको सुखी देख महायाजी भी प्रसन्न थे। इसी समयको बात है, एक दिन इन्द्र अपने ऐरावत नामक गजराजपर बैठकर तीनों लोकोंमें भ्रमण करनेके लिये निकले। उनके साथ रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनीकुमार, ऋषिगण, गन्धर्व, नाग, सिद्ध तथा विद्याधर आदि भी थे। घूमते-घूमते वे किसी समय समुद्रतटपर जा पहुँचे। वहाँ एक पर्वतकी गुफामें विरोचनकुमार बलि विराजमान थे। उनपर दृष्टि पड़ते ही इन्द्र हायमें वज्र लिये हुए उनके पास पहुँच गये।

देवराज इन्द्रको देवताओंके बीचमें ऐरावतकी पीठपर बैठे हुए देखकर भी दैत्योंके स्वामी बलिके मनमें तनिक भी शोक या घम्या नहीं हुई। वे निर्भय और निर्विकार होकर खड़े रहे। तब इन्द्रने कहा—विरोचनकुमार ! अपने शत्रुकी समृद्धि देखकर भी तुम्हें व्यथा नहीं होती, इसका क्या कारण है ? पराक्रम, वृद्ध पुरुषोंकी सेवा अथवा तपसे अन्तःकरण शुद्ध हो जानेके कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता ? दूसरोंके लिये तो ऐसा आचरण सर्वथा कठिन है। तुम शत्रुओंके वशमें

पड़े और उत्तम स्थान (स्वर्गके राज्य) से भ्रष्ट हुए—इस प्रकार शोचनीय दशामें पड़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता ? पहले बाप-दादोंके राज्यपर बैठकर सबके महाराज बने हुए थे; अब उस राज्यको शत्रुओंने छीन लिया—यह देखकर भी तुम शोक क्यों नहीं करते ? लक्ष्मी और धन खोकर भी दुःख न मानना बड़ा कठिन है। भला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो त्रिभुवनका राज्य नष्ट हो जानेपर भी जीवित रहनेमें उत्साह रखे ?'

ये तथा और भी बहुत-सी कठोर बातें सुनाकर इन्द्रने बलिका तिरस्कार किया। बलिनने भी बड़े आनन्दसे वे सारी बातें सुनीं और निर्भय होकर उत्तर दिया।

बलिनने कहा—इन्द्र ! जब मैं अच्छी तरह कालकी कंद-में आ गया हूँ, तो अब मेरे सामने इस प्रकार डोंग हाँकनेसे क्या लाभ है ? देखता हूँ, आज वज्र उठाये सामने खड़े हो। पहले तुममें इतनी ताकत नहीं थी; अब किसी तरह शक्ति आ गयी है तो इतनी शैली बघारते हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसी कठोर बात कह सकता है ? जो समर्थ होकर भी अपने हाथमें पड़े हुए चीर शत्रुपर दया करता है, वही महापुरुष माना जाता है। जब दो व्यक्तियोंमें युद्ध होता है तो एककी जीत और दूसरेकी हार निश्चित होती है। इसलिये तुम ऐसा न समझ लो कि मैंने अपने बल और पराक्रमसे ही विजय पायी है। आज जो तुम्हारी दशा अच्छी और मेरी इसके विपरीत है—यह तुम्हारे या मेरे प्रयत्नका फल नहीं है। अतः तुम मेरा अपमान न करो। समय-समयपर जीवको कभी सुख और कभी दुःख मिलता ही रहता है। जैसे कालने इस समय तुम्हें राजाके पदपर पहुँचाया है, इसी तरह कभी वह मुझे भी पहुँचाया। जब खराब समय आता है तो कालसे पीड़ित मनुष्यको विद्या, तप, दान, मित्र और बन्धु-बान्धव भी नहीं बचा पाते। संकड़ों आघात करके भी कोई आनेवाले अनर्थको नहीं रोक सकता। इन्द्र ! तुम जो अपने-को इस परिस्थितिका कर्ता मानते हो—यह अभिमान तुम्हारे ही दुःखका कारण होगा। यदि पुरुष स्वयं ही कर्ता होता तो उसको दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला न होता; किंतु वह तो दूसरेके द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिये ईश्वरके सिवा और कोई कर्ता नहीं है।

देवराज ! तुम्हारी बुद्धि गँवारोंकी-सी है, इसलिये एक-न-एक दिन अवश्य होनेवाले अपने नाशकी ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। संसारमें कुछ मूर्ख भी हैं, जो तुम्हें अपने ही पराक्रमसे उत्तम पदवीको प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा मानते हैं। किंतु मेरे-जैसा मनुष्य, जो संसारकी स्थितिको

जानता हो, समयके प्रभावसे आपत्तिमें पड़कर भी शोक, मोह अथवा भ्रममें कैसे पड़ सकता है ? मैं, तुम या दूसरे लोग, जो देवताओंके स्वामी होनेवाले हैं, एक दिन उसी मार्गपर जायेंगे, जिसपर पहलेके संकड़ों इन्द्र जा चुके हैं ।

यद्यपि आज तुम दुर्द्वय ही और अत्यन्त तेजसे देवीप्यमान हो रहे हो; किंतु याद रखना, समय आनेपर तुम भी मेरी ही तरह कालके शिकार बन जाओगे । अबतक देवताओंके हजारों इन्द्र कालके गालमें चले गये हैं । कालपर किसीका बरा नहीं चलता । तुम इस शरीरको पाकर सब प्राणियोंको जन्म देनेवाले सनातन देव भगवान् ब्रह्माजीकी भांति अपनेको बहुत बड़ा मानते हो; किंतु तुम्हारा यह इन्द्रपद आजतक किसीके लिये भी अविचल या अनन्तकालतक रहनेवाला नहीं साबित हुआ—इसपर कितने ही आये और चले गये । केवल तुम्हीं भूर्खताके कारण इसे अपना मानते हो ।

देवराज ! नाशवान् होनेके कारण जो विश्वासके योग्य नहीं, उस राज्यपर तुम विश्वास करते हो, जो टिकनेवाला नहीं, उसे स्थिर मानते हो; इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; बयोंकि कालने जिसे घेर रक्खा हो, वह सदा ऐसा ही समझता है । जिस राज्यलक्ष्मीको मोहवश अपनी मानते हो, यह न तुम्हारी है, न मेरी है और न दूसरेकी ही है । यह किसीके पास स्थिर नहीं रहती । बहुतसे राजाओंके उपभोगमें आ चुकी है और उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आयी है । इसका स्वभाव चञ्चल है, अतः कुछ कालतक तुम्हारे पास भी रहकर फिर दूसरेके यहाँ चली जायगी । अबतक इसने जितने राजाओंका परित्याग किया है, उनकी गणना नहीं हो सकती । तुम्हारे बाद भी बहुतसे राजे इसका उपभोग करेंगे । पूर्वकालमें इसे जिन-जिन राजाओंने भोगा है, वे आज कहीं बिलायी नहीं देते । पृथु, पुरुवा, मय, भीम, नरकासुर, शम्बरासुर, अश्वघोष, पुलोमा, स्वर्भानु, अमितमयज, प्रह्लाद, नमुचि, दश, विप्रचित्ति, विरोचन, ह्रीनिषेव, सुहोव, भूरिहा, पुष्पवान्, वृष, सत्येयु, ऋषभ, बाहु, कपिलाश, विसृपक, बाण, कात्स्वर, वल्लि, विश्वदंष्ट्र, नैऋति, संकोच, वरीतास, वराहाश्व, रुचिप्रभ, विश्वजित्, प्रतिरूप, विषाण्ड, विष्कर, मधु, हिरण्यकशिपु और कंटम—ये तथा और भी बहुतसे दैत्य, दानव और राक्षस आदि पूर्वकालमें पृथ्वीके स्वामी हो चुके हैं । जिन-जिन पूर्ववर्ती नरेशोंके आज हमलोग नाम सुनते हैं, वे सभी कालकी मार पड़नेसे इस पृथ्वीको छोड़कर चले गये; क्योंकि काल ही सबसे बड़ा बलवान् है ।

केवल तुमने ही सौ घण्टोंका अनुष्ठान किया हो, यह बात भी नहीं है । उन सभी राजाओंने सौ पत्र किये थे, सभी धर्मत्याये और सबके-सब निरन्तर घतमें संलग्न रहनेवाले थे । तुम्हारी ही तरह वे भी आकाशमें विचरते थे, संकड़ों मायाएँ जानते थे और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे । उनके भी तेज और प्रताप बढ़े हुए थे । किंतु कालने उनका भी संहार कर ही डाला । जिस दिन तुम्हें इस पृथ्वीको उपभोगके बाद त्यागना पड़ेगा, उस दिन तुम अपने प्रबल शोकको न दबा सकोगे; इसलिये विषयभोगकी इच्छा छोड़ दो, राज्य-लक्ष्मीके घमंडको त्याग दो । ऐसा करनेसे तुम अपने राज्यके नष्ट हो जानेपर भी उसके शोकको धैर्यपूर्वक सह सकोगे । शोकके समय शोक न करो और हर्षका अक्सर आनेपर हर्षसे फूल न उठो । इन्द्र ! इस कष्ट सत्यके लिये क्षमा करना, अब देर नहीं है, तुमपर भी कालका आक्रमण होनेहीवाला है, तुम्हें भी उससे भय प्राप्त होगा । इस समय तुम अपने तीखे बचनोसे मुझे छेदे डालते हो । मैं शान्त होकर बंठा हूँ, इसलिये तुम अपनेको बहुत बड़ा मान रहे हो । किंतु याद रखो, जिस कालका मूसपर धावा हुआ था, वही तुमपर भी चढ़ाई करेगा । देवताओंके एक हजार वयं पूर्ण होनेतक ही तुम्हें इन्द्र होकर रहना है ।

देवेन्द्र ! तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ । फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डींग क्यों हाँकते हो ? जब मैं राजा था, उस समय जो पुरुषार्थ दिला चुका हूँ, उससे तुम अपरिचित नहीं हो । कई बारके युद्धोंमें तुम मेरा पराक्रम देख चुके हो; एक ही दृष्टान्त देना काफी होगा । पहले जब देवानुद-संग्राम हुआ था, उस समयकी बात तुम्हें भूलो न होगी; मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रों, सार्ष्णों, वसुओं तथा मरुद्गणोंको परास्त किया था । मेरे वेपथे देवताओंमें भयदड़ पड़ गयी थी । तुम्हारे सिरपर भी पर्वतोंके कितने शिखर फोड़ डाले थे; किंतु इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, कालका उल्लङ्घन करना कठिन है । तुम्हारे हाथमें वज्र रहनेपर भी मैं केवल मुक्केसे मारकर तुम्हें भीतके घाट उतार सकता हूँ; किंतु मेरे लिये यह पराक्रम दिवानेका नहीं, क्षमा करनेका समय है । इसीलिये तुम्हारे सब अपराध वृषवाप सहै लेता हूँ और यही वजह है कि तुम अपनी मूढ़ी बढ़ाई किये जा रहे हो । जैसे मनुष्य रस्तीसे किसी पशुको बांध लेता है, उसी प्रकार मयंकर काल मुझे अपने पारसमें बांधे लड़ा है । पुरुषको लाभ-हानि, सुख-दुःख, काम-श्रेय, जन्म-मरण और बन्धन-मोक्ष—ये सब कालसे ही प्राप्त होते हैं । जो कालके प्रभावको जानता है, वह उससे कष्ट पाकर भी शोक

करता; क्योंकि दुःख दूर करनेमें शोकसे कोई महायत्ना नहीं मिलनी, यही सोचकर मैं शोक नहीं करता। शोकग्रस्त मनुष्यका शोक उसकी विपत्तियों तो टालता नहीं, उलटे उसकी शक्तियों क्षीण कर देता है; इसीलिये मैं शोक नहीं करता।

वहिके इस कथनको सुनकर द्रुपदका क्रोध उतर गया। वे शान्त होकर बोले—‘दैत्यराज ! मेरे हाथको वज्रसहित ऊपर उठे देखकर मारनेकी इच्छासे आयी हुई मृत्युका भी दिन बहल जाता है, फिर दूसरा कौन है जो व्यथित न हो; किन्तु तुम्हारी बुद्धि तत्त्वको जाननेवाली और स्थिर है, इसलिये तनिक भी विचलित नहीं होती। इसमें संदेह नहीं कि धर्मके ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती। वास्तवमें कालका कोई परिहार नहीं है, उसके उल्लङ्घनका कोई उपाय नहीं है। काल सब प्राणियोंके साथ एक-सा बर्ताव करता है। यह दिन, रात, मास, क्षण, काण्डा, लव और कलातकका हिमाव करके प्राणीको पीटा पहुँचाता रहता है। जैसे नदीमें अचानक आयी हुई बाढ़, अपने वेगसे किनारेके वृक्षको तोड़-उखाड़कर बहा ले जाती है, उसी प्रकार ‘यह काम आज करेगा, उसे कल पूरा करना है’ ऐसा कहते हुए मनुष्यको काल सहसा आकर दबोच लेता है। ‘अरे ! उसको तो अभी-अभी देखा था, वह मर कैसे गया ?’—इस तरह कालके वेगमें बहते हुए मनुष्योंके प्रलाप सुनायी पड़ते हैं। धन, ऐश्वर्य, भोग और स्थान—ये सब कालके द्वारा नष्ट होते हैं। काल ही आकर प्राणियोंका जीवन हर ले जाता है। ऊँचे चढ़नेका अन्त है नीचे गिरना और जन्मका परिणाम है मृत्यु। जो कुछ देखनेमें आता है, सब नाशवान् है, अस्थिर है; तो भी निरन्तर इस बातका स्मरण रहना फटिन हो जाता

है। अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि तत्त्वको जाननेवाली तथा स्थिर है, इसलिये उसे घबराहट नहीं होती। काल अत्यन्त प्रबल है, वह सम्पूर्ण जगत्पर आक्रमण करके सबको अपनी आँचमें पका रहा है। काल इस बातको नहीं देखता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा; वह सबको अपनी आगमें झोंकता जाता है, फिर भी किसीको चेत नहीं होता। लोग ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, भय, स्पृहा और मोहमें फँसकर अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं। किन्तु तुम विद्वान्, ज्ञानी और तपस्वी हो, कालकी लीला और उसके तत्त्वको जानते हो, सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण हो तथा तत्त्वके विवेचनमें कुशल और ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हो।

‘मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धिसे सम्पूर्ण लोकोंका तत्त्व जान लिया है। तुम सर्वत्र विचरते हुए भी सबसे मुक्त हो, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति नहीं है। तुमने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, इसलिये रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। तुम हर्ष और शोकसे रहित आत्माकी उपासना करते हो। सब प्राणियोंके प्रति तुम्हारा सौहार्द है, किसीके प्रति घृण नहीं है। तुम्हारे चित्तमें सदा शान्ति बनी रहती है। तुम्हें देखकर मेरे मनमें दयाका संचार हो आया है। मैं तुम्हारे-जैसे ज्ञानीको बन्धनमें रखकर मारना नहीं चाहता। अब मेरी ओरसे तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुँचेगी; तुम स्वस्थ और सुखी रहो।’

ऐसा कहकर गजराजपर बंटे हुए देवराज इन्द्र बहसते चले गये और सम्पूर्ण असुरोंको जीत लेनेके पश्चात् सबके एकच्छत्र सम्राट् होकर आनन्दसे रहने लगे। उस समय उत्तम ब्राह्मणोंने उनकी स्तुति की और वे स्वर्गमें लौटकर सुवर्णपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे।

इन्द्रके पास लक्ष्मीका आना तथा दानव-दैत्योंके उत्थान और पतनका कारण बताना

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! जिस पुरुषका उत्थान या पतन होनेवाला होता है, उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं ? यह बतानेकी कृपा कीजिये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! जिसका उत्थान या पतन होनेका होता है, उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणोंको प्रकट कर देता है। इस विषयमें लक्ष्मी और इन्द्रके संवाद रूपमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो। एक समयकी बात है, देवर्षि नारदजी मचेरे उठकर

पवित्र जलमें स्नान करनेके लिये ध्रुवलोकके द्वारसे प्रकट हुई गङ्गाजीके तटपर गये और उनके भीतर उतरे। इतनेहीमें वज्रधारी इन्द्र भी उसी तटपर आ पहुँचे जहाँ नारदजी स्नान कर रहे थे। फिर दोनोंने एक ही साथ गोते लगाये और मनको एकाग्र करके संक्षेपसे गायत्री-मन्त्रका जप किया। तत्पश्चात् वे गङ्गाजीके किनारे, जहाँ सुवर्णमयी बालुका फली हुई थी, बैठ गये और अनेकों पुष्पात्माओं, देवर्षियों तथा महार्षियोंके मुंहसे सुनी हुई कथाएँ कहने-सुनने लगे। अभी

दोनों एकाग्रचित्त होकर वार्तालाप कर ही रहे थे, इतनेमें किरणजालसे मण्डित भगवान् सूर्यनारायणका उदय हुआ। तब उन दोनोंने खड़े होकर सूर्योपस्थान किया।



इसी समय उन्हें आकाशमें एक विष्य ज्योति दिखायी पड़ी, जो क्रमशः निकट आती जान पड़ी। वह विष्णु-भगवान्का एक विमान था और अपनी आभासे तीनों लोकोंको प्रकाशित करता हुआ अनुपम शोभा पा रहा था। नारद और इन्द्रने उस विमानमें साक्षात् लक्ष्मीदेवीका दर्शन किया, जो कमलके पत्तेपर विराजमान थीं। सुन्दरीं स्त्रियोंमें सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मीदेवी उस उत्तम विमानसे उतरकर इन्द्र और नारदजीके पास आयीं। इन्द्र भी नारदजीके साथ आगे बढ़े और देवीके पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्परचात् अपना नाम निवेदन करके उनको विधि-वत् पूजा की और पूछा 'देवि! तुम कौन हो, कहति आती हो और कहाँ जा रही हो?'

लक्ष्मीजी बोलीं—इन्द्र! तीनों लोकोंके चराचर प्राणी मेरे स्वहृपको प्राप्त होकर परमात्माके साथ मिलनेके लिये निरन्तर उद्योग करते रहते हैं। मैं सम्पूर्ण प्राणियोंको ऐश्वर्य प्रदान करनेके लिये सूर्यको किरणसे लिले हुए कमलसे प्रकट हुई हूँ। मुझे लोग पया, धी और पयमासिनो कहते हैं। मैं ही लक्ष्मी, भूति, धी, धृष्टा, मेधा, संज्ञि, विज्ञि,

स्मृति, धृति, सिद्धि, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति तथा स्मृति हूँ। धर्मशील पुरुषोंके देशमें, नगरमें और घरमें मेरा निवास है। मैं युद्धमें पीठ न दिखाकर विजयसे सुशो-भित होनेवाले शूरवीर राजाके शरीरमें सदा मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्माचरण करनेवाले, बृद्धिमान्, ब्राह्मणभक्त, सत्यवादी, विनयी तथा दानशील पुरुषोंमें भी सदा निवास करती हूँ। मैं सत्य और धर्मसे बँधकर पहले अमुरोंमें रहती थी, किंतु अब उन्हें धर्मके विपरीत देखकर तुम्हारे यहाँ रहनेका विचार करती हूँ।

इन्द्रने पूछा—देवि! दैत्योंका आचरण पहले कँसा था? जिससे तुम उनके पास रहती थीं और अब क्या देखा है, जो उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गयी हो?

लक्ष्मीजीने कहा—जो अपने धर्मका पालन करते और धर्मसे कभी विचलित नहीं होते हैं; ऐसे प्राणियोंके भीतर मेरा निवास होता है। पहले दैत्यलोग दान, अध्ययन और यज्ञमें संलग्न रहते थे। देवता, पितर, गुरु और अतिथियोंको पूजा करते थे। उनमें सदा सत्य बोलनेकी प्रवृत्ति थी। वे अपना घर-द्वार झाड़ू-बहारकर साफ रखते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे और गुहसेवी, जितेन्द्रिय, ब्राह्मणभक्त तथा सत्यवादी थे। उनमें धृष्टा धी, श्रेय नहीं था। वे दानी थे, किंतु किसीकी निन्दा नहीं करते थे। ईर्ष्या छोड़कर स्त्री, पुत्र और मन्त्री आदि सेवकोंका भरण-पोषण करते थे। उनमें अमर्ष और लाग-डंठ नहीं थी, सबका स्वभाव अच्छा था, सभी दयानु थे, सबमें सरलता, सुदृढ़ भवित तथा इन्द्रिय-सयमका गुण था। सब अपने भृत्यों और मन्त्रियोंको सतुष्ट रखनेवाले, कृतज्ञ तथा मधुर-भाषी थे। वे सबका समुचितपरो सम्मान करते, धन देते, लज्जा रखते और वत एव नियमोंका पालन करते थे। उपवास और तपमें लगे रहते थे। सबके विरवातपात्र थे। प्रतिदिन सूर्योदयके पहले जागते तथा रातमें कभी बही और सत् नहीं लाते थे। प्रातःकाल धी तथा दूसरी-दूसरी मातृलिक वस्तुओंका दर्शन करते और ब्राह्मणोंको पूजा किया करते थे। सब धर्मको पथमें लगे रहते और इन्द्र-प्रहसे दूर रहते थे। रातके आधे भागमें ही सोते थे; दिन तो वे कभी सोनेका नाम भी नहीं लेते थे।

इसप्रणाम बृद्ध इर्षल, रोगी और विद्वान् करते तथा उनके लिये अस और वस्त्र बाँटते थे; विचारपरत ज्ञान भयभीत, रोगी, दुर्बल तथा बिलस्य श्रेयसे लुप्त गया हो उनसे श्रेय प्राप्त करने थे। धर्मका ही आचरण कर रहे थे। इन्होंने कहे थे।

गुरुजनों तथा बड़े-बूढ़ोंको सेवानें इतकित्त रहते थे। पितरों, देवताओं और अतिथियोंकी विधिबन्त पूजा करते थे तथा उन्हें अर्घ्य करनेके परबान्त बचे हुए अन्नको ही प्रतिदिन प्रसादरूपमें ग्रहण करते थे, सभी सत्यवादी और तपस्वी थे। वे उत्तम भोजन बनवाकर उसे अकेले ही नहीं खाते थे, पहले बूढ़ोंको देकर पीछे अपने उपभोगमें लाते थे। सब प्राणियोंको अपने ही समान समझकर उनपर दया रखते थे। चतुरता, सरलता, उल्लाह, अहंकारहीनता, परमसाहार्द, सत्ता, सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया, कौमल बाणों तथा मित्रोंसे प्रगाढ़ प्रेम—ये सभी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते थे। निद्रा, आलस्य, अग्रसन्नता, बोधदृष्टि, अविद्वेक, असंतोष, विषाद और कानना आदि दोष उनके भीतर नहीं प्रवेश करने पाते थे। इस प्रकार उत्तम गुणोंवाले दानकोंके पास में सृष्टिकालसे लेकर अबतक अनेकों युगोंसे रहती आयी हैं।

किन्तु अब समयके उत्पन्न-केरने उनके गुणोंमें विपरीतता आ गयी है। नीने देखा, दैत्योंने धर्म नहीं रह गया है, वे काम और ओषके बराबूमत हो गये हैं। अब बड़े-बूढ़े लोग समानें बँठकर कोई बात कहते हैं तो गुणहीन दैत्य भी उनमें दोष निकालते हुए उनकी हँसी उड़ाया करते हैं। बूढ़ पुरुषोंके आनेपर भी नवयुवक लोग अपने आसनपर बैठे ही रह जाते हैं; पहलेकी भाँति अब उठकर खड़े नहीं होते और न प्रणाम आदिके द्वारा उनका सत्कार ही करते हैं। पिताके रहते ही बेटा मात्तिक बन बँटता है। पुत्र पिताको तथा स्त्रियाँ अपने पतिको आज्ञा नहीं मानती। माता, पिता, बूढ़, आचार्य, अतिथि और गुरुओंका आदर उठ गया। संतानोंके लालन-पालनपर भी ध्यान नहीं दिया जाता। देवता, पितर, अतिथि तथा गुरुजनोंका पूजन और उन्हें अन्नदान किये बिना ही मंत्र लोग भोजन करने लगे हैं। उनके रसोइये भी पवित्र नहीं रहते। दैत्योंके यहाँ इंसको बिना दके छोड़ दिया जाता है; घोको अब वे झूठे हाथोंसे छूने लगे हैं। पशुओंको घरमें बाँध देते हैं, किन्तु चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते। छोटे बालक आया लगाने देखते रहते हैं और दानव लोग खानिको चीड़ अकेले चट कर जाते हैं। सेवकोंको मूत्रे छोड़कर अपने खा लेते हैं। वे मूर्खोदयतक सोते हैं और प्रमादको भी रात ही समझते हैं। उनके घर-भरमें दिन-रात कलह मचा रहता है। वे आश्रमवासी महात्माओंमें तथा आपसमें भी द्वेष रखते हैं।

अब उनके यहाँ वर्णभेद संज्ञानें होने लगी हैं; किसीमें भी पवित्रता नहीं रह गयी है। वेदेवता ब्राह्मणों अथवा मूलोंका आदर या अनादर करनेमें वे कोई अन्तर नहीं रखते। उनकी दार्ष्टियाँ सुन्दर गहने पहनकर दुराचारिणों स्त्रियोंके

भाँति चलने, फिरने, बँजने और कटास करने लगी हैं। श्रीहाके समय स्त्रियाँ पुरुषोंके और पुरुष स्त्रियोंके बेश धारण करते हैं। कितने ही दानव पूर्वकालमें अपने पूर्वजोंद्वारा सुयोग्य ब्राह्मणोंको दानके रूपमें दी हुई जागिरे नाम्दिकताके कारण छान लेते हैं। उनमें जो व्यापारी हैं, वे सदा बूढ़ोंका धन ढग लेनेका ही विचार रखते हैं। शिष्योंमें तो गुरुकी सेवाका भाव ही नहीं रहा, अब तो उतने गुरु लोग ही शिष्योंकी सेवा-रहल करने लगे हैं। बहू अपने दास-समुद्रके सामने ही नौकरोंपर हुकम चलाती हैं। पत्नी ही पतिपर शासन करती और उनका नाम ले-लेकर पुकारती है। जिन्हें हितभी और मित्र समन्धा जाता था, वे ही लोग अब अपने सम्बन्धीके धनको आग लगाने, चोरी हो जाने अथवा राजाके द्वारा छिन जानेसे नष्ट हुआ देखते हैं तो द्वेषवग्य उनकी विलिपियाँ उड़ाते हैं। सबके-सब कृतघ्न, नास्तिक, पापाचारी तथा गुरुस्त्री-गानी हो गये हैं। जो चीज नहीं खाने चाहिये, वह भी खाते और धर्मकी मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं। इसीलिये अब उनके बदनपर वह पहलेका-सा तेज नहीं रहा।

देवेन्द्र ! अबसे इन दैत्योंने धर्मके विपरीत आचरण शुरू कर दिया है, तबसे नीने यह निश्चय किया है कि अब इनके घरमें नहीं रहूँगा। यही बजह है, जिससे उन्हें त्यागकर मैं स्वयं तुन्हारे पास आया हूँ; तुन मुझे स्वीकार करो। जहाँ मैं रहूँगा, वहाँ आगा, अष्टा, धृति, क्षान्ति, विजिति, संनति, क्षमा तथा क्या—ये आठ देवियाँ भी मेरे साथ निवास करंगी। इन आठोंमें क्या ही सबसे प्रधान है। मेरे साथ ये सभी देवियाँ अनुशुओंको त्यागकर तुन्हारे पास आयी हैं। देवताओंका मन धर्ममें लगा होता है, इसलिये अब हमलोग इन्हींके यहाँ निवास करंगी।

भौष्मजी कहते हैं—सम्भोदेवीके इस प्रकार कहने-पर देवीय नारद और इन्द्रने उनकी प्रसन्नताके लिये अभि-नन्दन किया। उस समय गीतल, मुत्तद और सुगन्धित हवा चलने लगी। उस पावन प्रदेशमें लक्ष्मीसहित इन्द्रका दर्शन करनेके लिये सम्पूर्ण देवता उपस्थित हो गये। तत्पश्चात् इन्द्र महर्षि नारद और लक्ष्मीजीके साथ स्वर्गमें आये और देवताओंसे संकृत होकर समानें विराटमान हुए। उस समय नारदजीने लक्ष्मीजीके गुणगानकी प्रशंसा की। पितरामह ब्रह्माजीके लोकमें अमृतकी वर्षा होने लगी। देवताओंकी दुन्दुभि बिना बजाये ही वल उठी। सम्पूर्ण दिशाएँ निर्मल एवं श्रीसम्पन्न दिखायी देने लगीं। लक्ष्मीजीके वहाँ आ जानेपर संज्ञानें समयपर वर्षा होने लगी। कोई भी धर्मनागसे विचलित नहीं होता था। पृथ्वीमें बहूतनी

रत्नोंकी खानें प्रकट हो गयीं । मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष और राक्षसोंकी समृद्धि बढ़ गयी । वे सदा प्रसन्न रहने लगे । गोएँ दूध देनेके साथ ही सम्पूर्ण कायनाएँ सिद्ध करने लगीं । किसीके मुँहसे कठोर वाणी नहीं निकलती थी । जो लोग इन्द्रादि देवताओंद्वारा की हुई भगवती लक्ष्मीकी आराधनासे सम्बन्ध रखनेवाले इस अध्यायका ब्राह्मणोंकी मण्डलीमें

बँठकर पाठ करते हैं; वे यदि धनके इच्छुक हों तो उन्हें प्रचुर मात्रामें सम्पत्ति प्राप्त होती है । कुक्षुधेट ! तुमने जो उत्पान और पतन के पूर्व लक्ष्मीके विषयमें प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने लक्ष्मीजीके द्वारा कहे हुए दानवोंके उत्पान-पतनका कारण बताकर दे दिया । तुम स्वयं परीसा करके इसकी पर्यायंताका निश्चय कर सकते हो ।

जंगीयव्यका देवलको समत्वबुद्धिका उपदेश तथा श्रीकृष्णका उपदेशके प्रति नारदजीके गुणोंका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! कैसे शील, किस तरहके आचरण, कौसी विद्या और कौसे पराक्रमसे युक्त होनेपर मनुष्य प्रकृतिसे पर, अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! जो पुरुष मिताहारी और जितेन्द्रिय होकर भोक्तृपयोगी धर्मके पालनमें संलग्न रहता है, वही प्रकृतिसे पर, अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । इस विषयमें जंगीयव्य मुनि और असित-देवतके संवाद-रूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । एक बार सम्पूर्ण धर्मोंके जाननेवाले महाज्ञानी जंगीयव्य मुनिसे असित-देवतने इस प्रकार पूछा—‘मुनिवर ! यदि आपको कोई प्रणाम करे तो आप अधिक प्रसन्न नहीं होते और निन्दा करे तो भी उसपर क्रोध नहीं करते—यह आपकी बुद्धि कौसी है, कहसि प्राप्त हुई है और इसका फल क्या है ?’

उनके इस प्रकार पूछनेपर उन महातपस्वीने संदेहरहित, पवित्र और सार्यक बचनोंमें उत्तर दिया ।

जंगीयव्यने कहा—मुनिवर ! पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्योंके जिसके प्रभावसे उत्तम गति और परम शान्ति प्राप्त होती है, वह बुद्धि में तुमसे बरा रहा है; मुनो—महात्मा पुरुषोंके कोई निन्दा करे, प्रशंसाके गीत गाये अथवा उनके सदाचार तथा पुण्यकर्मोंपर परदा डाले किन्तु वे सबके प्रति एक-सी ही बुद्धि रखते हैं । उनसे कोई कटु वचन कह दे तो वे उसके बदलेमें कुछ भी नहीं कहते । बुराई करनेवालेकी भी बुराई नहीं करते । स्वयं मार लाकर भी मारनेवालेको मारना नहीं चाहते । भविष्यमें आनेवाली बातकी चिन्ता छोड़कर वर्तमान कामोंको ही करते हैं । जो बात भीत चुकी है उसके लिये शोक नहीं करते । किसी बातके लिये प्रतिज्ञा नहीं करते, उनका ज्ञानपरिपक्व होता है । वे महा-बुद्धिमान्, क्रोधको जीतनेवाले और जितेन्द्रिय होते हैं । मन, वाणी और शरीरसे कभी किसीका अपराध नहीं करते,

मनमें ईर्ष्या नहीं रखते । दूसरोंकी निन्दा और प्रशंसासे दूर रहते हैं । अपनी निन्दा अथवा प्रशंसा सुनकर उनके चित्तमें कभी विकार नहीं होता । वे सर्वथा शान्त और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न रहते हैं । हृदयकी अज्ञान-मयी गतिं खोलकर चारों ओर आनन्दके साथ विचार करते हैं । न तो उनके कोई शत्रु होते हैं और न वे ही किसीके शत्रु होते हैं । जो मनुष्य ऐसा आचरण करते हैं, वे सदा सुखसे जीवन बिताते हैं । जो धर्मज्ञ होकर धर्मके अनुसार चلتते हैं, वे सुखी होते हैं तथा जो धर्ममार्गसे भ्रष्ट हो जाते हैं, उन्हें सदा दुःख उठाना पड़ता है । मैंने भी धर्ममार्गका ही अवलम्बन किया है, अतः अपनी निन्दा सुनकर क्यों किसीसे द्वेष कर्हू ? अथवा प्रशंसा सुनकर भी किसलिये हर्ष मानूँ ? न निन्दासे भेरी हार्ति होती है, न प्रशंसासे लाम । तत्त्व-वेत्ताको चाहिये कि अपमानको अमृतके समान समझकर उससे संतुष्ट हो और सम्मानको विषतुल्य जानकर उससे डरता रहे । निर्दोष महात्मा पुरुष अपमानित होनेपर भी इस लोक और परलोकमें सुखसे सोते हैं, परंतु उनका अपमान करनेवाला मनुष्य अपने ही अपराधसे मारा जाता है । जो बुद्धिमान् उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस धतका आचरण करके सुखी होते हैं और इन्द्रियोंकी अपने अधीन करके अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेते हैं । उन्हें जो गति प्राप्त होती है वह देवता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षसोंके लिये भी दुर्लभ है ।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! संसारमें कौन मनुष्य सब लोगोंका प्रिय और समस्त गुणोंसे युक्त है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! तुम्हारे इस प्रश्नके उत्तरमें मैं श्रीकृष्ण और उपशेनका संवाद सुनाता हूँ जो नारदजीके विषयमें हुआ था । एक दिन उपशेनने श्रीकृष्णसे कहा ‘जगद्वन्द ! सब लोग नारदजीके गुणोंकी प्रशंसा करते

हैं, इससे जान पड़ता है वे बड़े गुणवान् हैं; अतः तुम मुझसे उनके गुणोंका वर्णन करो।'



सत्यवादी होनेके कारण उनकी सब जगह पूजा होती है तेज, धरा, बुद्धि, ज्ञान, विनय, उत्तम कुल और तपस्यामें वे सबसे बड़े हुए हैं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, सबका आदर करते, पवित्र रहते और अच्छी बातें कहते तथा किसीसे भी ईर्ष्या नहीं रखते। इन्हीं गुणोंके कारण उनका सर्वत्र सम्मान होता है। वे सबको भलाई करते। उनके मनमें जरा भी ईर्ष्या नहीं है, उनकी सहनशक्ति भी बड़ी हुई है तथा वे सबको समान दृष्टिसे देखते हैं, इसलिये उनका मन कोई प्रिय है न अप्रिय। उन्हें अनेकों शास्त्रोंका ज्ञान और उनका क्या कहनेका ढंग भी बड़ा विचित्र है। उन पूर्ण पाण्डित्य होनेके साथ ही लालसा और शठताका अभाव है। कृपणता, क्रोध और लोभ आदि दोष तो उन्हें छूट नहीं गये हैं। मुझमें उनकी बृहत् भक्ति है। उनका हृदय शुद्ध है, वे शास्त्रोंके ज्ञाता, दयानु और मोह आदि दोषोंसे रहित हैं। उनकी बुद्धिमें संदेहके लिये स्थान नहीं है, वे बड़े अच्छे वक्ता हैं। उनका मन विषयमोगोंकी ओर नहीं जाता वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। ईर्ष्यासे दूर रहते और भीठी बाणों बोलते हैं, इसलिये उनका सर्वत्र आदर होता है। वे किसी शास्त्रमें दोषदृष्टि नहीं करते, समयको व्यर्थ नहीं खोते और अपने मनको बगमें रखते हैं। उनकी बुद्धि पवित्र है, उन्हें समाधिसे कभी तृप्ति नहीं होती, वे कर्तव्यपालनके लिये सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते। लोभ उन्हें अपनी भलाईके कामोंमें सदा लगाये रखते हैं। किसीके गुण रहस्यको नहीं प्रकट करते। घन मिलनेसे उन्हें प्रसन्नता नहीं होती और न मिलनेसे दुःख नहीं होता। उनका बुद्धि स्थिर और मन आत्मकिररहित है, इसलिये सब जगह लोग उनकी पूजा करते हैं। वे सम्पूर्ण गुणोंसे सुशोभित कार्य-कुशल, पवित्र, नोरोग, समयका मूल्य समझनेवाले और परम प्रिय आत्मतत्त्वके ज्ञाता हैं, भला उनसे कौन प्रेम नहीं करेगा।

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! मुनिये, मैं नारदजीके उत्तम गुणोंको संक्षेपमें बताता हूँ। वे जैसे विद्वान् हैं वैसे ही सच्चरित्र भी हैं, किन्तु अपनी सच्चरित्रताका उनके मनमें तनिक भी अभिमान नहीं है। इसीलिये उनका सर्वत्र आदर होता है। नारदजीमें अज्ञेयता, क्रोध, चपलता और भय आदि दुर्गुण नहीं हैं। वे किसी कामना या लोभके कारण अपनी बात नहीं फेरते; अतः सबके पूज्य हैं। अध्यात्म-शास्त्रके विद्वान्, क्षमाशील, शक्तिमान्, जितेन्द्रिय, सरल और

व्यासजीका शुकदेवके पूछनेपर उन्हें कालका स्वरूप तथा सृष्टिकी उत्पत्ति बतलाना

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति किससे होती है? उनका नश क्या होता है? परमार्थकी प्राप्तिके लिये किसका ध्यान और किस कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये? कालका क्या स्वरूप है और भिन्न-भिन्न युगोंमें मनुष्योंकी कितनी आयु होती है?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें नगवान्

व्यासने अपने पुत्र शुकदेवजीको जो उपदेश दिया था वही प्रसंग तुम्हें सुना रहा है। एक दिन शुकदेवने वेदव्यासजीमें अपने मनका संदेह इस प्रकार पूछा—'पिताजी ! पापियोंको उत्पन्न करनेवाला कौन है? कालके ज्ञानसे क्या परिणाम निकलता है और द्राक्ष्यका क्या कर्तव्य है? ये सब बातें बतानेकी कृपा कीजिये।'

व्यासजीने कहा—बेटा ! सृष्टिके प्रारम्भमें अनादि,



सौ वर्षोंका, द्वापर चौबीस सौ वर्षोंका और कलियुग बारह सौ वर्षोंका होता है। ये चारों युग प्रवाहहृषते सदा रहनेवाले लोकोंको धारण करते हैं। यह युगात्मक काल ब्रह्मवेत्ताओंके सनातन ब्रह्मका ही स्वरूप है। सत्ययुगमें धर्म और सत्यके चारों चरण मौजूद रहते हैं—उस समय धर्म और सत्यका पूरा-पूरा पालन होता है। कोई भी अधर्ममें नहीं प्रवृत्त होता। अन्य युगोंमें क्रमशः धर्मका एक-एक चरण नष्ट होता जाता है और चोरी, असत्य तथा छल-कपट आदिके द्वारा अधर्मको वृद्धि होती रहती है। सत्ययुगके मनुष्य नीरोग और पूर्णकाम होते हैं, उनको आयु चार सौ वर्षोंकी होती है। व्रतामें उनको आयु एक चौथाई घटकर तीन सौ वर्षोंकी रह जाती है। इसी प्रकार द्वापरमें दो सौ और कलियुगमें सौ वर्षोंकी पूरी आयु होती है। व्रतादि युगोंमें देवोंका स्वाध्याय कम होने लगता है, मनुष्योंकी आयु घटती जाती है, कामनाओंको पूर्तिमें बाधा पहुँचने लगती है और वैवाध्यायनके फलमें भी म्यूनता आ जाती है। युगोंके ह्रासके अनुसार सत्ययुग, व्रता, द्वापर और कलियुगमें मनुष्योंके धर्म भी भिन्न-भिन्न होते हैं। सत्ययुगमें तपस्याको सबसे बड़ा धर्म माना गया है, व्रतामें ज्ञानको उत्तम बताया गया है, द्वापरमें धन और कलियुगमें एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार देवताओंके बारह हजार वर्षोंका एक चतुर्गुण होता है। एक हजार चतुर्गुण बीतनेपर ब्रह्माका एक दिन पूरा होता है। इतने ही युगोंकी उनको एक रात्रि भी होती है। भगवान् ब्रह्मा अपने दिनके आरम्भमें संसारकी सृष्टि करते हैं और रातमें जब प्रलयका समय होता है तो सबको अपनेमें लीन करके योगनिद्राका आश्रय लेकर सो जाते हैं। फिर प्रलयका अन्त होने अर्थात् रात बीतनेपर वे जग उठते हैं। इस प्रकार एक हजार चतुर्गुणका जो ब्रह्माका एक दिन बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि बतलायी गयी है, उसको जो लोग ठीक-ठीक समझें हुए हैं वे ही कालके तत्वको जाननेवाले हैं। रात्रि समाप्त होनेपर जागृत हुए ब्रह्माजी पहले महत्तत्त्वको उत्पन्न करते हैं, फिर उससे स्थूल जगत्को धारण करनेवाले मनको उत्पत्ति होती है।

येदा! तेजोमय ब्रह्म ही सबका बीज है, उसीसे यह सत्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है। उस एक ही भूतसे स्थावर और जङ्गम दोनोंकी उत्पत्ति होती है। ऊपर बताया आये हैं कि ब्रह्माजी अपने दिनके आरम्भमें जागकर सृष्टि-रचना आरम्भ करते हैं। सबसे पहले भाग्यसे महत्तत्त्व प्रकट होता है, उससे स्थूल सृष्टिका आधारभूत मन उत्पन्न होता है। फिर सृष्टिको इच्छासे प्रेरित होनेपर मन नाना प्रकारके आकार धारण करता है, उससे शब्द गुणवाले आकाशकी

अनन्त, अजन्मा, दिव्य, अजर, अमर, अविकारी, अतवर्ष और ज्ञानातीत ब्रह्म ही या। वह कालस्वरूप है। कालके कला, काष्ठा आदि जितने भेद हैं सब उसीके अवयव हैं। महर्षियोंने पंद्रह निमेषकी एक काष्ठा, तीस काष्ठाकी एक कला, तीस कला और तीन काष्ठाका एक मुहूर्त तथा तीस मुहूर्तका एक रात-दिन माना है। तीस दिन-रातका एक मास और बारह मासका एक वर्ष होता है। एक वर्षमें दो अयन होते हैं, जिन्हें दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। मनुष्यलोकके दिन-रातका विभाग सूर्य करते हैं। रात सोनेके लिये है और दिन काम करनेके लिये। मनुष्योंके एक मासमें पितरोंका एक दिन-रात होता है। शुक्ल पक्ष उनका दिन है और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंके एक दिन-रातके बराबर है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। मनुष्योंके जो रात-दिन बताया गये हैं, उन्हें हिसाबसे अब मैं ब्रह्माके दिन-रातका मान बतलाता हूँ, साय हो चारों युगोंकी वर्ष-संख्या भी अलग-अलग बता रहा हूँ। देवताओंके चार हजार वर्षोंका एक सत्ययुग होता है। इसमें चार सौ दिव्य वर्षोंकी संख्या होती है और उतने ही वर्षोंका संख्या भी होता है। इस प्रकार सत्ययुगकी पूरी आयु अज्ञातसत् सौ दिव्य वर्षोंकी है। शेष तीन युगोंमें यह संख्या क्रमशः एक-एक चौथाई घटती जाती है अर्थात् संख्या और संख्यांसंहित व्रतायुग छत्तीस

उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात् जब आकाशमें विकार होता है तो उससे अत्यन्त पवित्र और बलवान् वायुतत्त्वका आविर्भाव होता है। उसका गुण स्पर्श माना गया है। वायुके विकृत होनेपर उससे ज्योतिर्मय अग्नि तत्त्व प्रकट होता है, उसका गुण है रूप। फिर तेजमें विकार आनेपर उससे रसमय जल-तत्त्वकी उत्पत्ति होती है और जलसे पृथ्वी तथा उसके गुण गन्धका प्रादुर्भाव होता है। पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत अपने पूर्ववर्ती भूतोंके भी गुण धारण करते हैं।

पञ्चमहाभूत, वस इन्द्रियाँ और मन—इन सोलह तत्त्वोंसे शरीरका निर्माण हुआ है। इन सबका आश्रय होनेके कारण ही देहको शरीर कहते हैं। शरीरके उत्पन्न होनेपर उसमें तीयके भोगावशिष्ट कर्मोंके साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते हैं। समस्त प्रजाके आदि कर्ता होनेके कारण ब्रह्माजीको जापति कहते हैं, वे ही चराचर प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं। जल, अग्नि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकारके लोक, नदी, समुद्र, विशा, पर्वत, वनस्पति, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, गुण तथा सर्पोंको भी वे ही उत्पन्न करते हैं। नित्य और अनित्य पदार्थोंकी सृष्टि भी उन्होंने ही की है। सृष्टिके आरम्भमें जिन प्राणियोंके द्वारा जैसे कर्म किये गये होते हैं, दूसरी बार जन्म लेनेपर भी वे उन पूर्वकृत कर्मोंकी वासनासे प्रभावित होनेके कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं। एक जन्ममें मनुष्य हिंसा-अहिंसा, कोमलता-कठोरता, धर्म-अधर्म और सच-झूठ आदि जिन गुणोंको अपनाता है, दूसरे-जन्ममें भी उनके संस्कारोंसे प्रभावित होकर उन्हीं गुणोंको पसंद करता और वैसे ही कार्योंमें लग जाता है।

सत्त्वगुणमें स्थित समदर्शी पुरुष तपको ही जीवके कल्याणका मुख्य साधन बतलाते हैं। तपका मूल है शम और दम। पुरुष अपने मनमें जिन-जिन कामनाओंकी इच्छा

करता है, उन सबको वह तपस्यासे प्राप्त कर लेता है। जगत्की उत्पत्ति करनेवाले परमात्माकी प्राप्ति भी तपसे ही होती है, तपोबलसे ही मनुष्य समस्त प्राणियोंपर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। तपके ही प्रभावसे महर्षियोंने पूर्व जन्ममें पढ़े हुए वेदोंका स्मरण किया। तपःशक्तितसे सम्पन्न होकर ही ब्रह्माजीने आदि-अन्तसे रहित वेद-विद्याका ज्ञान प्राप्त किया और उसे परवर्ती ऋषियोंमें फैलाया। अपनी रात्रिका अन्त होनेपर ब्रह्माजीने जिन प्राणियोंको जन्म दिया, उनके नाम, नाना प्रकारके भेद, तप, धार्मिक कर्म, यज्ञ, कीर्ति तथा मोक्षके साधनोंको वेदोंके अनुसार ही प्रकाशित किया। ऋषियोंके नाम, देवताओंकी उत्पत्ति, प्राणियोंके अनेकों रूप और उनके कर्म आदिका विधान भी वेदवाक्योंके अनुसार ही हुआ है।

ब्रह्मके दो स्वरूप हैं—एक शब्दब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। इन दोनोंका ज्ञान होना आवश्यक है। जिसे शब्दब्रह्मका पूर्ण ज्ञान हो जाता है वह सुगमतासे परब्रह्मका साक्षात्कार कर लेता है। सत्ययुगके लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदमें बतलाये हुए सकाम यज्ञोंको आत्मासे पूषक देखकर ध्यान-योगरूप तपका अनुष्ठान करते थे। उसके बाद व्रतामें जो महाशक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हुए, उन्होंने सम्पूर्ण चराचर जगत्को नियमके अंदर रखा। उस समय वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान और वर्णाश्रम-धर्मके पालनकी सुन्दर व्यवस्था थी। परंतु द्वारपरयुगमें आयुकी न्यूनताके कारण लोगोंमें उपर्युक्त बातोंकी कमी होने लगी। कलियुग आनेपर तो वेदोंका कहीं दर्शन होता है और कहीं नहीं होता। उस समय अधर्मसे पीड़ित होकर यज्ञ और वेद लुप्त हो जाते हैं। बेटा! इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने सृष्टि, काल, कर्म, वेद और कर्मफल आदिके विषयमें कुछ बातें बतायी हैं।

प्रलयका क्रम, ब्राह्मणको दान देनेकी महिमा तथा ब्राह्मणके कर्तव्यका वर्णन

व्यासजी कहते हैं—पुत्र! अब मैं यह बता रहा हूँ कि ब्रह्माजीका दिन बीतनेपर उनकी रात्रि आरम्भ होनेके पहले किस प्रकार इस सृष्टिका लय होता है तथा ब्रह्माजी स्थूल जगत्को अत्यन्त सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने भीतर लीन कर लेते हैं? जब प्रलयका समय आता है तो ऊपरसे सूर्य और नीचेसे अग्नि की सात ज्वालान् संसारको भस्म करने लगती हैं। सबसे पहले पृथ्वीके चराचर प्राणी उन ज्वालाओंसे दग्ध होकर धूसमें मिल जाते हैं। उस समय यह सूक्ष्म तुण और वृक्षोंसे रहित होकर कछुएकी पीठ-सी दिखायी

देने लगती है। तत्पश्चात् जब पृथ्वीके गुण गन्धको ग्रहण कर लेता है, इससे गन्धहीन पृथ्वी अपने कारणभूत जलमें लीन हो जाती है। फिर तो जल गम्भीर शब्द करता हुआ चारों ओर उमड़ पड़ता है, उसमें उसाल तरङ्ग उठने लगती हैं और वह सम्पूर्ण विश्वको अपनेमें निमग्न करके लहराता रहता है। तदनन्तर, तेज जलके गुण रसको ग्रहण कर लेता है और रसहीन जल तेजमें लीन हो जाता है। उस समय सम्पूर्ण आकाश आगकी लपटोंसे प्रज्वलित-सा दिखायी देता है। फिर तेजके गुण रूपको वायु-तत्त्व ग्रहण कर लेता है;

इससे आग ठंडी होकर वायुमें मिल जाती है, तब हवाका वेग बढ़ता है और वह बड़े जोरसे हरहराती हुई ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर चलने लगती है। इसके बाद आकाश वायुके गुण स्वर्णको ग्रस लेता है, तब हुआ शान्त होकर आकाशमें सीन हो जाती है और शब्द-गुणसे युक्त केवल आकाश रह जाता है। रूप, रस, गन्ध और स्वर्णका नाम भी नहीं रहता। तत्परचात् दूर्यध्रपञ्चको ध्यस्त करनेवाला मन आकाशके गुण शब्दको, जो मनसे ही प्रकट हुआ था, अपनेमें सीन कर लेता है। इस तरह पाञ्चभौतिक सृष्टिका ब्रह्माके मनमें लय होना ब्राह्म प्रलय कहलाता है। इस क्रमके अनुसार सम्पूर्ण भूतोंके प्रलयस्थान भी ब्रह्माजी ही हैं।

इस प्रकार तुम्हें ज्ञानका सुयोग्य अधिकारी जानकर परमात्माको प्राप्त हुए योगियोंके द्वारा जानने योग्य यह प्रलयका यथायत्त वृत्तान्त मैंने सुनाया है। इसी तरह एक-एक हजार युगोंके ब्रह्माके दिन और रात होते रहते हैं तथा दिनके आरंभमें सृष्टि और रात्रिके आरम्भमें प्रलयका क्रम चालू रहता है।

.. शुक्रदेव ! अब मैं तुम्हारे प्रश्नके अनुसार ब्राह्मणका कर्तव्य बतला रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो—ब्राह्मण-बालकका जातकर्मसे लेकर समावर्तनतक विधियत् संस्कार होना चाहिये। प्रत्येक संस्कारमें दक्षिणा देनी चाहिये। उपनयनके परचात् वह वेदोंके पारगामी आचार्योंको सेवामें रहकर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करे। फिर शूभ्र्या और दक्षिणाके द्वारा गुरु-ऋणसे मुक्त होनेके बाद उत्सका समावर्तन-संस्कार होना चाहिये। तदनन्तर, आचार्योंकी आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, घानप्रत्य और संन्यास—इन चारों आधर्मोंमें किसी एक आधर्ममें शास्त्रोक्त विधिसे अनुसार जीवन-पर्यन्त रहे अथवा, क्रमशः सभी आधर्मोंमें प्रवेश करे।

गृहस्थ-आधर्म सब धर्मोंका मूल है। इसमें रहकर अन्तःकरणके रागादि दोष पक जानेपर जितेन्द्रिय पुरुषको सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ पुरुष पुत्र उत्पन्न करके पितृ-ऋणसे, वेदोंका स्वाध्याप करके ऋषि-ऋणसे और यज्ञोंका अनुष्ठान करके देव-ऋणसे छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों ऋणोंसे मुक्त होकर वह अपने धर्म तथा आधर्मके लिये विहित कर्मोंका सम्पादन करे और अपनेको पवित्र बनावे। तत्परचात् दूसरे आधर्ममें प्रवेश करे। इस पृथ्वीपर ओ स्थान पवित्र एवं उत्तम जगत् पड़े यहाँ निवास करके वह अपनेको धरास्वी और आदरां पुरुष बनानेका प्रयत्न करे। महान् तप, पूर्ण विद्याध्ययन, धर्म, धर्म अथवा दान करनेसे गृहस्थ ब्राह्मणका धरा बढ़ता है। उसकी कीर्ति जबतक इस संसारमें उसके मुपराका वित्सार करती रहती है, सबतक वह पुण्यवानोंके अक्षय सौकोंमें निवास करके दिव्य सुख

भोगता रहता है। ब्राह्मणको अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह—इन छः कर्मोंका आश्रय लेना चाहिये। किंतु उसे अनुचित प्रतिग्रह और धर्म्य दानसे बचना चाहिये। देवता, ऋषि, पितर, गुरु, बृद्ध, रोगी और भूखे मनुष्योंको भोजन देनेके लिये गृहस्थ ब्राह्मणको प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिये। अपनी शक्तिके अनुसार पारमार्थिक उपायोंके लिये प्रयत्न करनेवाले ब्राह्मणोंको इत्येके अतिरिक्त बनी हुई रसोईमेंसे अन्न भी देना चाहिये। योग्य ब्राह्मणोंके लिये कोई भी वस्तु अवैय नहीं है। महान् व्रतधारी राजा सत्यसंघ ब्राह्मणके प्राणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण देकर स्वर्गलोकमें गये थे। अत्रिके पुत्र राजा इन्द्रदमनने योग्य ब्राह्मणको नाना प्रकारके धन दान करके अक्षय सौक प्राप्त किये थे। देवावुधने सोनेका छत्र दान करके अपने देशकी प्रजाके साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया। अत्रिर्षगमें उत्पन्न महातेजस्वी सांछ्छित अपने शिष्योंकी निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम सौकोंको प्राप्त हुए। राजा अम्बरीषने ब्राह्मणोंको ध्यारह अरब गौएँ दान देकर देवावासियोंसहित स्वर्गमें निवास किया। सावित्रीने दो दिव्य कुण्डल दान किये थे और राजा छनमेजयने ब्राह्मणके लिये अपने शरीरका परित्याग किया था—इससे उन दोनोंको उत्तम सौककी प्राप्ति हुई। विदेहराज निचिने अपना राज्य और जमदग्नि-नन्दन परशुराम तथा राजा गयने नगरोत्सहित सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणको दानमें दे दी थी। एक बार पानी न बरसनेपर वसिष्ठने दूसरे प्रजापतिकी भाति सम्पूर्ण प्रजाको जीवनदान किया। कर्णधर्मके पुत्र राजा भरतने महर्षि अङ्गिराको अपनी कन्या और पाञ्चालदेशके राजा बृहस्पतिने उत्तम ब्राह्मणोंको महर्षिनिधि शङ्ख देकर उत्तम सौक प्राप्त किया था। राजर्षि सहस्रजित्ने ब्राह्मणके लिये अपने प्राण दे दिये। राजा शतधुम्नने महर्षि मुद्गलको सब प्रकारके सुख-भोगोंसे भरा हुआ सुवर्णमय घर दान किया और शाल्व-नरेश धृतिमान्ने ऋचोक मुनिको अपना राज्य अर्पण कर दिया। इन सब राजाओंको उत्तम सौकोंकी प्राप्ति हुई थी। राजर्षि सोमपादने ऋष्यभृद्ग मुनिकी शान्ता नामकी अपनी कन्या ब्याह दी और राजा मरिचरसवने भी हिरण्य-हस्त ऋषिको अपनी पुत्री अर्पण कर दी थी—इससे इन दोनोंको सब प्रकारकी कामनाएँ तथा उत्तम सौक प्राप्त हुए। राजा प्रसेनजित् बछडोंसहित एक साल गौएँ दान करके उत्तम सौकोंमें गये। ये तथा और भी बहुत-से जितेन्द्रिय महापुरुष दान और तपके द्वारा स्वर्गको प्राप्त हो चुके हैं। जबतक यह पृथ्वी रहेगी, तबतक उनकी कीर्ति इस संसारमें कायम रहेगी।

ब्राह्मणको ऋक्, साम, यजु—इन तीन वेदों तथा वेदाङ्गोंका अध्ययन करना चाहिये । जो ब्राह्मण वेदाध्ययनमें प्रवीण, अध्यात्मज्ञानमें कुशल और सत्त्वगुणका अवलम्बन करनेवाले हैं, वे ही महाभाग उत्पत्ति और प्रलयके तत्त्वको प्रत्यक्षकी भाँति देखते हैं । ब्राह्मणको उचित है कि धर्मके अनुकूल जीवन बनावे और शिष्ट पुरुषोंकी भाँति सदाचारका पालन करे । किसी भी जीवको कष्ट न देकर ही जीविका चलावे । महात्मा पुरुषोंकी सेवामें रहकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करे, सत्पुरुष बने और शास्त्रकी व्याख्या करनेमें कुशल हो । अपने धर्मके अनुकूल नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करे । कर्तव्य-परायण सत्त्वगुणी महात्माओंका सङ्ग करे और गृहस्थाश्रममें रहते हुए अध्ययनाध्यापनादि छः कर्मोंमें लगा रहे । ऐसा आचरण करनेवाला ही उत्तम ब्राह्मण माना जाता है ।

गृहस्थ ब्राह्मणको सदा श्रद्धापूर्वक पञ्चमहायज्ञोंद्वारा परमात्माका पूजन करना चाहिये । वह सदा धैर्य धारण करे, प्रमादसे बचे, मन और इन्द्रियोंको काबूमें रखे, धर्मात्मा बने, आत्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करे और हर्ष, मद तथा क्रोधसे रहित हो जाय । ऐसे ब्राह्मणको कमी दुःख नहीं भोगना पड़ता । अध्ययन, यज्ञ, दान, तप, लज्जा, सरलता और इन्द्रियसंयमसे वह अपने तेजको बढ़ावे और पापको नष्ट करे । इस प्रकार पापरहित होकर अपनी मेधाशक्तिको जाग्रत करे तथा मिताहारी और जितेन्द्रिय हो काम और क्रोधको अधीन करके ब्रह्मपदको पानेकी इच्छा करे । अग्नि, ब्राह्मण और देवताओंको प्रणाम करे । कड़वी बात न बोले और हिंसा न करे । यह ब्राह्मणका परम्परागत कर्तव्य है । कर्मोंके तत्त्वको जानकर उनका अनुष्ठान करनेसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है । इस बातको भूलना नहीं चाहिये कि प्राणियोंको अत्यन्त मोहमें डालनेवाला काल सदा आक्रमण करनेके लिये तैयार खड़ा है । बुद्धिमान् और धीर मनुष्य ज्ञानमयी नौकासे संसारसागरके पार हो जाते हैं; क्योंकि वे गुण

और दोषोंका विचार करके गुणोंका ग्रहण और दोषोंका परित्याग करते हैं । किंतु कामनाओंमें आसक्त, चञ्चलचित्त, मन्दबुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष संदेहमें पड़ जानेके कारण इस संसारसागरको नहीं पार कर सकते । वे हिम्मत हारकर बैठ जाते हैं, इसलिये आगे नहीं बढ़ पाते । अतः बुद्धिमान्को भवसागरसे पार होनेका अवश्य प्रयत्न करना चाहिये । इसका पार होना यही है कि वह सच्चे अर्थमें ब्राह्मण बन जाय अर्थात् ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करे । उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह—इन तीन कर्मोंको संदेहकी दृष्टिसे देखकर उनमें प्रवृत्त न हो और अध्ययन, यजन तथा दान—इन तीन कर्मोंका अवश्य पालन करे । वह जैसे भी हो अपने उद्धारका प्रयत्न करे । ज्ञानके द्वारा इस भवसागरको अवश्य पार कर जाय । जिसके वैदिक संस्कार विधिवत् सम्पन्न हुए हैं, जो नियमपूर्वक रहकर मन और इन्द्रियोंपर विजय पा चुका है, उस विज्ञ पुरुषको इस लोक या परलोकमें कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती । गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और ईर्ष्याका त्याग करके उपर्युक्त नियमोंके पालनमें संलग्न रहे । नित्य पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करके यज्ञशिष्ट अन्नका ही भोजन करे । सत्पुरुषोंके धर्म और शिष्टाचारका पालन करे, ऐसी आजीविका पसंद करे जिससे दूसरे लोगोंको कष्ट न हो तथा जिसकी लोकमें निन्दा न होती हो । ब्राह्मणको वेदका विद्वान्, तत्त्वज्ञानी, सदाचारी और चतुर होना चाहिये । जो अपने धर्मके अनुसार कार्य करनेवाला, धृष्टालु और धर्म-अधर्मके तत्त्वको जाननेवाला होता है, वह सम्पूर्ण दुःखोंके पार हो जाता है । धैर्य, अप्रमाद, इन्द्रियसंयम और आत्मज्ञानको प्राप्त करना तथा हर्ष, मद और क्रोधको त्यागना यह ब्राह्मणका प्राचीन धर्म है । ज्ञानवान् होकर कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है ।



ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति, ध्यानके सहायक योग और सात प्रकारकी धारणाओंका वर्णन

व्यासजी कहते हैं—पुत्र ! यदि मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो मनुष्यको ज्ञानवान् होना चाहिये । जैसे समुद्रकी ऊँची-नीची लहरोंमें डूबता-उतरता हुआ मनुष्य नाव मिल जानेपर उसके पार हो जाता है, उसी प्रकार

संसार-सागरसे पार होनेके लिये भी बुद्धिमान् पुरुषको ज्ञानरूपी नौकाका सहारा लेना चाहिये । जो ज्ञानी है, वह ज्ञानमयी नौकाकी सहायतासे अज्ञानियोंको भी भवसागरसे पार कर देता है । ध्यानयोगकी साधना करनेवाले मुक्तिको

चाहिये कि वह हृदयके रागादि दोषोंको दूर कर पायोसे मुक्त हो योगमें सहायता पहुँचानेवाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निरचय, चक्षुष्य, आहार, संहार, मन और दर्शन—इन बारह उपायोंका आश्रय ले* ।

जिते उत्तम ज्ञान (मोक्ष) प्राप्त करनेकी इच्छा हो उसे बुद्धिके द्वारा मन और वाणीको जीतना चाहिये ; मनुष्य शूरवीर हो या दुखी, वह इस प्रकारकी साधनासे जरा और मृत्युरूप दुर्गम समुद्रके पार हो जाता है । उपर्युक्तरूपसे योगमें प्रयुक्त हुए पुरुषको यदि ब्रह्मज्ञानकी इच्छा हो तो वह वैदिक कर्मकालोंकी सीमाको भी लांघ जाता है । अक्षर ब्रह्मको प्राप्त करनेकी अभिलाषावाले पुरुषको जिस प्रकार शीघ्र सफलता मिल सकती है, वह उपाय मैं बता रहा हूँ । किसी एक विषयमें चिन्तकी स्थापित करनेका नाम है धारणा । ये धारणाएँ सात

प्रकारकी होती हैं ।* साधकको मीन होकर यम-नियमका पालन करते हुए इनका अभ्यास करना चाहिये । दूर और

* शरीरके अंदर क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त और अहंकार—इन सात तत्त्वोंका चिन्तन किया जाता है । यही सात प्रकारकी धारणा है । इसके इस प्रकार समझना चाहिये—पँरसे लेकर घुटनोतक पृथ्वीका स्थान समझकर उसमें पृथ्वीकी धारणा करनी चाहिये । घुटनेसे लेकर गुदातक जलका स्थान माना गया है । गुदासे लेकर हृदयतक अग्निका स्थान कहलाता है । हृदयसे दोनों भौंहोंके बीचतकका भाग वायु का स्थान है और भ्रूमध्यसे लेकर मूर्धातक आकाश माना गया है । जल आदिके स्थानोंमें उस-उस तत्त्वकी धारणा करनी चाहिये । इसकी विधि यों है—पृथ्वी यानी पँरसे घुटनेतकके भागमें भावनाद्वारा प्रणवसहित वं बीज और वायु देवताकी स्थापना करके चार मुधोंवाले सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीका ध्यान करे । पाँच घड़ीतक इस प्रकार धारणा करनेसे पृथ्वीतत्त्वपर विजय प्राप्त होती

* ध्यानयोगके साधकको ऐसे स्थानपर आसन लगाना चाहिये जो समतल और पवित्र हो । जहाँ रेत, कंकड़-पत्थर और आग आदि न हो, कानोमें किसी तरहकी आवाज न आती हो, दूरसरोके रहनेका घर न हो तथा सांजनिज कुआँ, तालाब, बावड़ी या नदीका घाट आदि भी न हो । जो नेत्रोंको भला भालूम हो, जहाँ मन लग सके और हवाका जोर न हो । गुफा या ऐसा ही कोई एकान्तस्थान ही ध्यानके लिये उपयोगी होता है । ऐसे स्थानपर आसन लगानेको वैशायो कहते हैं । आहार, विहार, चेष्टा, सोना और जागना—ये सब परिमित और नियमानुकूल होने चाहिये । यही कर्मनामक योग है । सदाचारी शिष्यको अपनी सेवा और सहायताके लिये रखना अनुरागयोग कहलाता है । आवश्यक सामग्रियोंके संग्रहका नाम अर्थयोग है । ध्यानीपयोगी आसनेसे बैठना उपाययोग है । संसारके विषयों और सगे-सम्बन्धियोंसे आसक्ति तथा ममता हटा लेनेको अपाययोग कहते हैं । गुरु और वेद-शास्त्रके वचनोंपर विश्वास रखनेका नाम निश्चययोग है । चक्षु आदि इन्द्रियोंको वशमें रखना चक्षुष्ययोग है । धृष्ट और सार्विक भोजनका नाम है आहारयोग । विषयोंकी ओर होनेवाली स्वामाबिक प्रवृत्तिको रोकना संहारयोग कहलाता है । मनके संकल्प, विकल्पको शान्त करनेका प्रयत्न मनोयोग है । जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि होनेके समय जो महान् दुःख होता है, उसपर विचार करके ससारेसे विरक्त होनेका नाम दर्शनयोग है । जिसे योगके द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी हो, उसे इन बारह योगोंको अवश्य सिद्ध कर लेना चाहिये ।

इसी प्रकार जलके स्थानमें प्रणवसहित वं बीज और वायु देवताको स्थापित करके ध्यानमें देखे कि 'वहाँ चार भुजाधारी भगवान् नारायण विराजमान हैं । उनके शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल श्रीविग्रहपर पीताम्बर घोभा पा रहा है । वे साधककी ओर देखकर मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं, बड़ी सुन्दर झाँकी है ।' पाँच घड़ीतक इस प्रकार धारणा करनेसे सब प्रकारके रोग नष्ट हो जाते हैं । अग्निके स्थानमें भी प्रणव एवं वं बीजसहित वायु देवताकी स्थापना करके वहाँ इस प्रकार ध्यान करे—'मध्याह्नकालीन गुरुके समान अत्यन्त तेजस्वी, त्रिनेत्रधारी चरदाता भगवान् दकर सामने खड़े हैं । उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें विभूति घोभा दे रही है, वे बड़े प्रसन्न दिखायी देते हैं ।' यह धारणा भी पाँच घड़ीतक सिद्ध हो जाय तो आगसे जलनेका भय नहीं रहता । वायुके स्थान अर्थात् हृदयसे भ्रूमध्यतकके भागमें पूर्ववत् भावनाके ही द्वारा प्रणव-युक्त वं बीज और वायु देवताका स्थापन करके उसमें भी अग्नितत्त्वकी भाँति भगवान् शकरका ही ध्यान करे । यह धारणा सिद्ध होनेपर वायुकी तरह आकाशमें विचरनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है । आकाशतत्त्वके स्थानमें भी प्रणवयुक्त वं बीजके साथ वायु देवताके प्रतिष्ठा करके उसमें आकाशके समान निरुकार भगवान् सदाशिवका बिन्दुके रूपमें चिन्तन करे । अव्यक्तकी धारणामें नादका चिन्तन किया जाता है । अहंकारकी धारणामें स्थूलदेहकी आसक्तिका परित्याग करके 'मैं ही यह सम्पूर्ण विरव हूँ' ऐसी भावना की जाती है । इसके बाद योगीकी तत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है ।

सर्वाङ्गके चेतने सात ही अदान्तर धारणाएँ भी होती हैं । उन्हें प्रधारणा कहते हैं । (चन्द्र, सूर्य, शुक्रमङ्गल आदिकी धारणा इत्यम् है और नासाय, मूत्रमय, कण्ठरूप आदिकी धारणा समीरस्य है ।) इन धारणाओंके द्वारा क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अक्षय्य तथा अहंकारके ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है । जब योगाभ्यासमें प्रवृत्त हुए योगीके कुछ अनुभव उत्पन्न होते हैं तथा धारणापूर्वक ध्यान करने समय जो पृथ्वीरूप आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका भी वर्णन किया जाता है ।

साधक जब स्थूल देहके अविभाज्ये मुक्त होकर ध्यानमें स्थित होता है तो उस समय मूकदृष्टिसे युक्त होनेके कारण उसे कुछ इस तरहके रूप (चिह्न) दिखायी पड़ते हैं । आरम्भमें पृथ्वीकी धारणा करने समय मानस होता है कि कुहरके समान कोई मूक वस्तु सम्पूर्ण आकाशको आच्छादित कर रही है ।* यह पहला रूप है । जब कुहरा निवृत्त हो जाता है तो दूसरे रूपका वर्णन होता है । वह अपने देहके भीतर तथा सम्पूर्ण आकाशमें जल-ही-जल देखता है । वह अनुभव जलतन्त्रकी धारणा करते समय होता है; फिर जलका नय हो जानेपर जब वह अग्नितन्त्रकी धारणा करता है तो सर्वत्र आगकी ज्वालना दिखायी पड़ती है । इसके भी नय हो जानेपर योगीको आकाशमें सर्वत्र फले हुए वायुका ही अनुभव होता है और वह स्वयं भी जलके धारणके समान अत्यन्त नय और हलका होकर अपनेको निराधार आकाशमें वायुके ही साथ-साथ स्थित मानता है । उस समय उसे अपने गरीरका हृदयमें ऊपरका ही भाग दिखायी पड़ता है । इस प्रकार तेजका संहार करके जब योगी वायुपर विजय पाता है तो वायुका मूकमरु

आकाशमें लीन हो जाता है और केवल छिद्ररूप नीलाकाश-मात्र शेष रहता है । उस अवस्थामें ब्रह्मभावको प्राप्त होनेकी इच्छा रखनेवाले योगीका चित्त अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है । उसे अपने स्थूल रूपका तनिक भी भाव नहीं होता ।

इन सब रूपों (चिह्नों) के दिखायी देनेके पश्चात् योगीको जो-जो फल प्राप्त होते हैं, उन्हें मुने—याथिय ऐश्वर्यकी सिद्धि हो जानेपर योगीमें सृष्टि करनेकी शक्ति आ जाती है । वह प्रजापतिके समान अपने गरीरमें प्रजाको सृष्टि कर सकता है । जिसको वायुतन्त्र सिद्ध हो जाता है वह बिना किसीकी सहायताके ज्ञाय, पैर, अंगुठे अथवा अङ्गुलीमात्रसे दबाकर पृथ्वीको कम्पित कर सकता है । आकाशको सिद्ध करनेवाला पुरुष आकाशके ही समान होकर सर्वत्र विचरता है और अपने गरीरको अवृष्य कर सकता है । जिसका जलतन्त्रपर अधिकार हो जाता है, वह इच्छा करते ही बड़े-बड़े जलाशयोंको पी सकता है । अग्नितन्त्रको सिद्ध कर लेनेपर वह गरीरको इतना तेजस्वी बना नेता है कि कोई उसका ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकता; फिर तेजको मान्त कर लेनेपर ही वह विश्वापी देता है । अहंकारको जीत लेनेपर पाँचों भूत योगीके बशमें हो जाते हैं । पञ्चभूत और अहंकार—इन छः तत्त्वोंका धारणा है बुद्धि, उसको जीत लेनेपर सम्पूर्ण ऐश्वर्योंकी प्राप्ति हो जाती है । उस समय विगूढ ज्ञान प्राप्त होता है ।

जिसने समता और अहंकारका त्याग कर दिया है, जो शान्त, उष्ण आदि दृष्टियोंको समान भावसे सहता है, जिसके संगम दूर हो गये हैं, जो कमी श्रेष्ठ और द्वेष नहीं करता, सूट नहीं बोलता, किसीकी गाली मुनकर और मार खाकर भी उसका अहित नहीं सोचता, सबपर मित्रभाव ही रखता है, जो मन, वाणी और कर्मेसे किसी जीवको कष्ट नहीं पहुँचाता और सब प्राणियोंपर समान भाव रखता है; वही योगी ब्रह्मभावको प्राप्त होता है । जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, जीवन-निर्वाह मात्रके लिये जो कुछ मिल जाता है, उमीपर संतोष करता है, जो निर्लौभ, निश्चिन्त, जितेन्द्रिय और पूर्णकाम है, सब प्राणियोंपर समान दृष्टि रखता है, मिट्टीके देने, पत्थर और सुवर्णको एक-सा समझता है, जिसकी दृष्टिमें प्रिय और अप्रियका भेद नहीं है, जो धीर है, निन्दा और स्तुतिका जिसके चित्तपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कामनाओंकी इच्छा न रखकर वृद्धताके साथ ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करता है तथा किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करता—ऐसा ज्ञानवान् योगी ही संसारसे मुक्त होता है । योगीको जिस उपायसे मुक्ति होती है, उसे

* यह अनुभव इस प्रकार होता है । जब साधक पंचमे तेजस्व भूतनेतृके भागमें पृथ्वी-तन्त्रकी धारणा करता है तो धारणा सिद्ध होनेपर उस स्थानका तो नय हो जाता है और वहाँ वृद्ध-न्ना दिखायी पड़ता है । उस समय भूतनेमे ऊपरका भाग और आकाश वृद्धमें आच्छादित-न्ना जान पड़ता है । इस स्थितिमें पृथ्वीपर विजय पानेका चिह्न मानते हैं । इसके बाद जब भूतनेमे ऊपर वायुतन्त्रके भागमें जलतन्त्रकी धारणा की जाती है तो यह वृद्धा और पृथ्वीका स्थान अवृष्य हो जाता है तथा वायुमें ऊपरका भाग कल्पान्तके समुद्रमें दृष्य-न्ना जान पड़ता है । यह जलतन्त्रमें भूमिके नय होने और जल-तन्त्रपर विजय पानेका चिह्न है । इसी प्रकार उनगोत्तर धारणाओंमें भूतोंका नय होता और उनपर विजय पायी जाती है ।

बतलाता है, सुनो—योगसे जिन ऐश्वर्यों अथवा सिद्धियोंको प्राप्त होती है, उनकी अवहेलना करके पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिये। ऐसा करनेसे ही मोक्ष प्राप्त होता है।

इस प्रकार भावगुद्धिसे प्राप्त होनेवाली बुद्धिका मैंने वर्णन किया है। जो उपर्युक्तरूपसे साधना करके इन्द्रोत्ति रहित हो जाता है, वही ब्रह्मभावको प्राप्त होता है।

बुद्धिकी प्रशंसा, प्राणियोंके तारतम्य, ज्ञानका साधन तथा उसकी महिमा

शुकदेवजीने पृथा—पिताजी ! जिसके द्वारा मनुष्यको जन्म और मृत्युके बन्धनसे छुटकारा मिल जाता है, उस ज्ञानका क्या स्वरूप है ? प्रवृत्तिधर्मसे मुक्ति होती है या निवृत्तिधर्मसे ? मुझे बताइये।

ध्यासजीने कहा—बेटा ! जो बुद्धिमान् हैं, वे ही खेलनेके लिये ह्यान और रहनेके लिये घर बना सकते हैं, वे ही लोगोंको पहचानकर उनपर ठीक-ठीक दबाका प्रयोग कर सकते हैं। बुद्धिसे ही अर्थ प्राप्त होता है और बुद्धि ही कल्याण करती है। यद्यपि सब राजा एक-से ही होते हैं, किन्तु उनमें जो बुद्धिमें बढ़ा-चढ़ा होता है, वही राज्यका उपभोग और दूसरोंपर शासन करता है। प्राणियोंके स्थूल-सूक्ष्म या छोटे-बड़ेका भेद बुद्धिसे ही जाना जाता है। बुद्धिही सबकी परम गति है। संसारमें जो नाना प्रकारके प्राणी हैं, उनके जन्मपर दुष्टि रखते हुए उन्हें जरायुज, अप्पज, स्वेदज और उद्भिज्ज—इन चार भागोंमें विभक्त किया जाता है। स्थावर प्राणियोंसे जङ्गलोंको भेष्ट समझना चाहिये; क्योंकि उनमें चलने-फिरने आदिकी शक्ति होती है। जङ्गल जीवोंमें भी बहुत परंचाले और दो परंचाले वे दो तरहके प्राणी होते हैं। इनमें बहुत परंचालोंकी अपेक्षा दो परंचाले भेष्ट होते हैं। दो परंचालोंके भी दो भेद हैं—मनुष्य और खेचर। खेचरोंसे मनुष्य ही भेष्ट हैं; क्योंकि उन्हें अन्न आदि भोगनेकी सुविधा प्राप्त है। मनुष्य भी दो प्रकारके हैं—उत्तम और मध्यम। मध्यम मनुष्योंकी अपेक्षा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करनेके कारण उत्तम मनुष्य भेष्ट हैं। मध्यम भी जातिधर्मका पालन करते हैं, इसलिये वे अधम मनुष्योंकी अपेक्षा भेष्ट हैं। मध्यम मनुष्योंके भी दो भेद हैं—धर्मके ज्ञाता और धर्मके अनभिज्ञ। इनमें धर्मत ही भेष्ट हैं; क्योंकि उनमें कर्तव्य और अकर्तव्यका विवेक होता है। धर्मके जाननेवाले भी दो प्रकारके होते हैं—वेदके जानकार और वेदकी न जाननेवाले। इनमें वेदके जानकार उत्तम हैं; क्योंकि उनमें वेद प्रतिष्ठित है। वेदके जानकार भी दो तरहके होते हैं—एक प्रवचन करनेमें कुशल होते हैं और दूसरे नहीं। उनमें प्रवचन करनेवाले ही भेष्ट हैं; क्योंकि उन्हें वेदमें

बताये हुए सम्पूर्ण धर्मोंका स्मरण रहता है तथा उनके द्वारा वैदिक धर्म, कर्म और उनके फलोंका दूसरोंको ज्ञान होता है। प्रवचन करनेवाले विद्वान् भी दो प्रकारके हैं—एक आत्मतत्त्वको जानते हैं और दूसरे नहीं। इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वे जन्म और मृत्युके तत्त्वको समझते हैं। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों धर्मोंको जानता है, वही सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, त्यागी, सत्यसंकल्प, सत्यवादी, पवित्र और शक्तिमान् है। जो वेदशास्त्रका ज्ञाता है और तत्त्वका निरख्य करके ब्रह्मज्ञानमें स्थित हो गया है, उसे ही देवतातोग्य ब्राह्मण मानते हैं। बेटा ! जो लोग ज्ञानवान् होकर बाहर और भीतर व्याप्त अधियज्ञ (परमात्मा) और अधिदेवत (पुरुष) का साक्षात्कार कर लेते हैं, वे ही देवता और वे ही द्विज हैं। जहाँमें यह सम्पूर्ण विरव प्रतिष्ठित है। उनके माहात्म्यकी कहीं तुलना नहीं है। वे जन्म, मृत्यु और कर्मकी सीमाको साँघकर समस्त प्राणियोंके अधीरवर और स्वयम्भू होते हैं।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार महर्षि व्यासके उपदेशको सुनकर शुकदेवजीने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और मोक्षधर्मके विषयमें पूछनेके लिये उत्तुङ्ग होकर इस प्रकार कहा—पिताजी ! प्रजावान्, वेदवेत्ता, धार्मिक, शोषदुष्टिसे रहित तथा शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष प्रत्यक्ष और अनुमानसे अमात अलौकिक ब्रह्मको किस प्रकार प्राप्त होता है ? तप, ब्रह्मचर्य, सर्वस्वका त्याग, भेषाशान्त, सांख्य अथवा योग—इनमेंसे किस साधनके द्वारा तत्त्वका साक्षात्कार होता है ? मनुष्य भन और इन्द्रियोंको किस उपायसे एकाग्र कर सकता है ? ये सब बातें ज्ञाननेकी कृपा कौजिये ?

व्यासजीने कहा—बेटा ! विद्या, तप, इन्द्रियनिग्रह और सर्वस्वत्यागके बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। सम्पूर्ण पहामृत विद्याताकी पहली सृष्टि है। वे प्राणियोंके शरीरमें भरे हुए हैं। पृथ्वीसे देहका निर्माण हुआ है। चिकनाहट और पत्तीने आदि जलके अंग हैं और अग्निसे नेत्र तथा वायुसे प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक, कान आदिके छिद्र आकाश-तत्त्वके स्वरूप हैं। शरणांगोंमें

विष्णु, हाथोंमें इन्द्र और उदरमें अग्नि' देवता भोक्तारूपमें स्थित रहते हैं। कानोंमें श्रोत्र इन्द्रिय और दिशाएँ हैं। जिह्वामें वाक् इन्द्रिय और सरस्वती देवताका निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और उन्हें विषयानुभवका द्वार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये इन्द्रियोंके विषय हैं। इन्हें इन्द्रियोंसे पृथक् समझना चाहिये। जैसे सारथि घोड़ोंको अपने वशमें रखकर उन्हें अपने इच्छानुसार चलाता है, इसी प्रकार मन इन्द्रियोंको काबूमें रखकर उन्हें स्वेच्छासे विषयोंकी ओर प्रेरित करता रहता है; किंतु हृदयमें रहनेवाला जीवात्मा उस मनपर भी सदा शासन किया करता है। जैसे मन सम्पूर्ण इन्द्रियोंका राजा और उन्हें विषयोंकी ओर प्रवृत्त करने तथा रोकनेमें समर्थ है, उसी प्रकार हृदयस्थित जीवात्मा भी मनका स्वामी तथा उसके निग्रह-अनुग्रहमें समर्थ है। इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके रूप, रस आदि विषय, स्वभाव (शीत-उष्णादि धर्म), चेतना, मन, प्राण, अपान और जीव—ये देहधारियोंके शरीरमें सदा मौजूद रहते हैं। इस प्रकार विद्वान् पुरुष पाँच इन्द्रिय, पाँच विषय और छः स्वभाव आदि गुण—इन सौलह तत्त्वोंसे आवृत अपने विशुद्ध आत्माका बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणमें साक्षात्कार करता है। इस महान् आत्माका दर्शन नेत्रों अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे नहीं हो सकता। यह विशुद्ध मनरूपी दीपकसे ही बुद्धिमें प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धसे हीन, अविकारी तथा शरीर और इन्द्रियोंसे रहित है तो भी शरीरके भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिये। जो इस विनाशशील शरीरमें अव्यक्त भावसे स्थित परमेश्वरका ज्ञानमयी वृष्टिसे निरन्तर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्युके पश्चात् ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। ज्ञानीजन विद्या और उत्तम कुलसे युक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समान वृष्टि रखनेवाले होते हैं। जिससे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियोंके भीतर

निवास करता है। जब जीवात्मा सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनेको और अपनेमें सम्पूर्ण प्राणियोंको स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। अपने शरीरके भीतर जैसा आत्मा है वैसा ही दूसरोंके शरीरमें भी है; जिस पुरुषको निरन्तर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वह अमृतत्व (मोक्ष) को प्राप्त होता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा होकर सबके हितमें लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्मपदको प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्गकी खोज करनेमें देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाशमें चिड़ियोंके और जलमें मछलियोंके चलनेके चिह्न दिखायी नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियोंकी गतिका भी किसीको पता नहीं चलता।

काल सम्पूर्ण प्राणियोंको पकाता (नष्ट करता) है, किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है—जो कालका भी काल है, उस आत्माको कोई नहीं जानता। परमात्मा ऊपर, नीचे, इधर-उधर अथवा बीचमें नहीं है। वह किसी एक स्थानसे दूसरे स्थानको गमन नहीं करता। सम्पूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं। कोई भी स्थान उसके स्वरूपसे बाहर नहीं है। यदि कोई धनुषसे छूटे हुए बाण अथवा मनके समान वेगसे निरन्तर दौड़ता रहे, तब भी जगत्के कारणस्वरूप उस परमेश्वरका अन्त नहीं पा सकता। वह सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है तथा उससे बढ़कर स्थूल भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उसके सब ओर हाथ-पंर हैं, सब ओर नेत्र हैं तथा सब ओर शिर, मुख और कान हैं; क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियोंके भीतर स्थित रहता है तो भी उसको कोई देख नहीं पाता। क्षर और अक्षर भेदसे दो प्रकारके पुरुष हैं। सम्पूर्ण भूत तो क्षर (विनाशी) हैं और दिव्य अमृतस्वरूप चेतन आत्मा अक्षर (अविनाशी) है। हंस नामसे जिस अविनाशी जीवात्माका प्रतिपादन किया गया है, वह कूटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान् उस अक्षर आत्माको यथार्थ रूपसे जान लेता है, वह जन्म और मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है।

योगसे परमात्माकी प्राप्ति का वर्णन

व्यासजी कहते हैं—ब्रह्मा ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने यहाँ ज्ञानके विषयका यथावत् वर्णन किया। अब योगकी बातें बतला रहा हूँ, सुनो—इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी वृत्तियोंको रोककर व्यापक आत्माके साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योगशास्त्रके मतमें उत्तम ज्ञान है। इसे प्राप्त करनेके लिये योगीको शम, दम आदि साधनोंसे सम्पन्न

होना चाहिये। वह अध्यात्म-शास्त्रका चिन्तन करे, आत्मामें ही अनुराग रखे, शास्त्रोंका तत्त्व जाने और शास्त्रविहित कर्मोंका निष्कामभावसे अनुष्ठान करे, काम, क्रोध, लोभ, मय और स्वप्न—ये योगके पाँच दोष हैं। इन दोषोंका उच्छेद करके अपनेको योग्य अधिकारी बनावे। तत्पश्चात् गुरुके मुखसे उस ज्ञानका उपदेश ग्रहण करे।

अब उन पाँचों बोधोंको जीतनेका उपाय बतलाते हैं। मनको वशमें रखनेसे श्रेयको और संकल्पका त्याग करनेसे कामको जीता जा सकता है। सत्त्वगुणका आश्रय लेनेसे घोर पुण्य निद्रापर विजय पा सकता है। मनुष्यको धर्मका सहारा लेकर विषयभोग और भोजनकी चिन्ता दूर करनी चाहिये। नेत्रोंकी सहायतासे हाथ और पैरोंकी, मनके द्वारा नेत्र और कानोंको तथा कर्णके द्वारा मन और वाणीको रक्षा करनी चाहिये। सावधानीके द्वारा भयका और विद्वानोंकी सेवासे दम्भका परित्याग करना चाहिये।

इस प्रकार योगके साधकको आत्मस्य छोड़कर योग-सम्बन्धी बोधोंको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये। वह अग्नि और ब्रह्मणोंकी पूजा तथा देवताओंको प्रणाम करे। मनको खुलानेवाली हिंसाभरी वाणी न बोले। तेजोमय ब्रह्म सबका बीज (कारण) है। यह जो कुछ दिखायो दे रहा है, सब उसीका रस (कार्य) है। सम्पूर्ण चराचर जगत् उस ब्रह्मके ही ईश्वर (संकल्प) का परिणाम है। ध्यान, वेदाध्ययन, सत्य, सज्जा, सत्कृता, क्षमा, शोध, आचारशुद्धि एवं इन्द्रियसंयमसे तेजकी वृद्धि होती और पापका नाश हो जाता है। साधककी सम्पूर्ण अभिलाषाएँ सिद्ध होती हैं तथा उसे विज्ञान प्राप्त होता है। योगीको चाहिये कि वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें समानभाव रखे। जो कुछ मिल जाय उसीमें संतुष्ट रहे, पापोंको धो डाले तथा तेजस्वी, मिताहारी और जितेन्द्रिय होकर काम और श्रेयको वशमें करके ब्रह्मपदको पानेकी इच्छा करे।

योगी मन और इन्द्रियोंको एकाग्र करके रातके पहले और पिछले पहरमें ध्यानस्थ होकर मनको आत्मामें लगावे। जैसे मशकमें एक जगह भी छेद हो जानेपर पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि पाँच इन्द्रियोंमेंसे एक भी विषयोंकी ओर प्रवृत्त हुई तो साधकका शास्त्रीय ज्ञान लुप्त हो जाता है; इसलिये जैसे मछलीमार जाल काटनेवाली मछलीको पहले पकड़कर पीछे दूसरी मछलियोंको पकड़ता है; उसी तरह साधक पहले अपने मनको वशमें करे। उसके बाद कान, आँख, जिह्वा तथा नासिका आदि इन्द्रियोंका निग्रह करे। पाँचों इन्द्रियोंको मनमें स्थापित करके इन्द्रियसहित मनको बुद्धिमें लीन करे; इससे इन्द्रियोंकी मलिनता दूर हो जाती है और उनमें निर्मलता आ जाती है। उस समय ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है। योगी अपने अन्तःकरणमें धूमरहित अग्नि, दीप्तिमान् सूर्य तथा आकाशमें चमकती हुई बिजलीके समान आत्माका दर्शन करता है। यह सबको आत्मामें और सबमें आत्माको स्थित देखता है। जो महात्मा ब्राह्मण ज्ञानी, धर्मवान, विद्वान् और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें तत्पर रहने-

वाले हैं, वे ही उस परमात्माका दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकान्तमें बैठकर तीक्ष्ण नियमोंका पालन करते हुए इस प्रकार योगाभ्यास करता है, वह थोड़े ही समयमें अक्षर ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

योगसाधनामें अप्रसर होनेपर मोह, भ्रम और आवृतं आदि विघ्न प्राप्त होते हैं, दिव्य सुगन्ध आती है, दिव्य रूपोंके दर्शन होते हैं, नाना प्रकारके अद्भूत रस और स्पर्शका अनुभव होता है, इच्छानुकूल सर्वाँ और गर्माँ प्राप्त होती है, हृदयकी तरह आकाशमें चलने-फिरनेकी शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है, दिव्य पदार्थ अपने-आप उपस्थित होने लगते हैं—इन सब सिद्धियोंको पाकर भी योगी उनकी उपेक्षा करे और मनको उनकी ओरसे लौटाकर आत्मामें ही एकाग्र करे, नियमके साथ रहे और पहाड़की चोटोपर, शून्य गृह या देवमन्दिरमें अथवा वृक्षाँके आश्रय-यास बैठकर तीन समय (सबेर तथा रातके पहले अथवा पिछले पहरमें) योगका अभ्यास करे। धन चाहनेवाले मनुष्यको जैसे सदा उसीकी चिन्ता बनी रहती है, उसी तरह योगका साधक भी इन्द्रियोंको संयममें रखकर हृदय-कमलमें स्थित आत्माका एकाग्रभावसे चिन्तन करे। मनको उद्विग्न न होने दे, जिस उपायसे भी चञ्चल मनको रोका जा सके उसका सेवन करे और साधनासे कभी विचलित न हो। योगका साधक मन, वाणी या क्रियासे भी कहीं आसक्त न हो, सबकी ओरसे उपेक्षाका भाव रखे, नियमित भोजन करे और लाभ-हानिको समान समझे। कोई प्रशंसा करे या निन्दा, वह दोनोंको समान दृष्टिसे देखे। एककी भलाई या दूसरेकी बुराई न सोचे। कुछ लाभ होनेपर हर्षसे फूल न उठे और न होनेपर चिन्ता न करे। सब प्राणियोंके प्रति समान दृष्टि रखे। चामुके समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असङ्ग रहे। इस प्रकार स्वस्थचित और समदर्शी रहकर छः महानैतिक नित्य योगाभ्यास करनेवाले साधु पुण्यको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है।

धनके लिये प्राणियोंको विकल देखकर उसको ओरसे विरक्त हो जाय और मिट्टीके ढेले, पत्थर तथा सोनेकी समान समझे। कोई नीच वर्णका पुण्य अथवा स्त्री ही धर्मों न हो, यदि उसे धर्म सम्पादन करनेकी इच्छा हो तो योगमार्गका सेवन करनेसे उसको भी परमगतिकी प्राप्ति हो जाती है। जिसने अपने मनको वशमें कर लिया है, वही अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, नित्यमूक्त, अणुसे भी अणु और महानुसे भी महान् आत्माका दर्शन कर सकता है।

महर्षि ध्यासजीके इस उपदेशपर विचार करके जो इससे अनुसार आचरण करते हैं, वे बुद्धिमान् मनुष्य ब्रह्मके समान होकर परमगति प्राप्त करते हैं।

कर्म और ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्मचर्य आश्रमका वर्णन

शुकदेवजीने पूछा—पिताजी ! वेदोंमें कर्मोंको करनेका भी विधान मिलता है और उन्हें त्यागनेका भी, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्योंको कर्म करनेसे क्या फल मिलता है और ज्ञानके द्वारा कर्म त्याग देनेपर उन्हें किस फलकी प्राप्ति होती है ?

भीष्मजी कहते हैं—शुकदेवजीके इस प्रकार पूछनेपर व्यासजी बोले—बेटा ! मैं इन दोनों मार्गोंका वर्णन करता हूँ—इनमेंसे एक क्षर (विनाशी) है और दूसरा अक्षर (अविनाशी) । क्षर कर्ममय है और अक्षर ज्ञानमय । वेदमें दो मार्गोंका वर्णन है—एक प्रवृत्तिधर्मका मार्ग है और दूसरा निवृत्तिधर्मका—इनमेंसे निवृत्तिधर्मका प्रतिपादन किया जा चुका है । कर्म (अविद्या) से मनुष्य बन्धनमें पड़ता है और ज्ञानसे मुक्त हो जाता है । इसलिये दूरदर्शी संन्यासीलोग कर्म नहीं करते । कर्म करनेसे फिर जन्म लेना पड़ता है, सोलह तत्त्वोंसे बने हुए देहकी प्राप्ति होती है; किंतु ज्ञानके प्रभावसे जीव नित्य, अव्यक्त और अविनाशी परमात्माको प्राप्त होता है । कुछ मन्दबुद्धि मनुष्य सकाम कर्मकी प्रशंसा करते हैं, इसलिये वे भोगासक्त होकर बारबार शरीरके बन्धनमें पड़ते रहते हैं । परंतु जो धर्मके तत्त्वको भलीभाँति समझकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे कर्मकी उसी तरह प्रशंसा नहीं करते, जैसे प्रतिदिन नदीका पानी पीनेवाले मनुष्य कुएँका आदर नहीं करते । कर्मका फल है सुख-दुःख और जन्म-मृत्यु; किंतु ज्ञानसे उस स्थानकी प्राप्ति होती है जहाँ जानेसे सदाके लिये शोकसे पिण्ड छूट जाता है, जहाँ जन्म और मृत्युकी पहुँच नहीं होती तथा जहाँ पहुँचा हुआ जीव फिर इस संसारमें लौटकर नहीं आता । ज्ञान होते ही बिना क्लेशके प्राप्त होनेवाले और कभी भी विलग न होनेवाले अव्यक्त, अचल एवं नित्य ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है । उस अवस्थामें सुख-दुःख आदि द्वन्द्व तथा मानसिक संकल्प बाधा नहीं पहुँचाते । उस स्थितिको प्राप्त हुए मनुष्य सर्वत्र समान वृष्टि रखते हैं, सबको मित्र समझते हैं और सब प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं ।

तात ! ज्ञानी और कर्मासक्त मनुष्योंमें बड़ा भारी अन्तर होता है । ज्ञानीका क्षय नहीं होता और कर्मासक्त मनुष्य चन्द्रमापी फलाके समान घटता-बढ़ता रहता है । वह मन, इन्द्रियरूप ग्यारह विकारोंसे युक्त होकर जन्म धारण किया करता है । कमलके पत्तेपर पड़ी हुई पानीकी बूंदके समान जो स्वयंप्रकाश चिन्मय देवता हृदयाकाशमें विराजमान

है, उसे क्षेत्रज्ञ (परमात्मा) समझना चाहिये तथा जिसने योगके द्वारा चित्तको वशमें किया है, वह जीवात्मा भी उसीका स्वरूप है ।

शुकदेवजीने कहा—पिताजी ! इस संसारमें युग-युगसे जिस सदाचारका पालन होता आया है, उसे सुनना चाहता हूँ तथा संतलोग जैसा बताव करते हैं वैसा ही मैं भी करना चाहता हूँ । आपके उपदेशसे मैं पवित्र हो गया हूँ तथा मुझे जगत्की रीति-नीतिका भी ज्ञान हो गया है । अब मैं धर्माचरणसे बुद्धिका संस्कार करके स्थूल देहका अभिमान त्याग कर अपने अविनाशी स्वरूप परमात्माका दर्शन करूँगा ।

व्यासजीने कहा—बेटा ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिस आचार-व्यवहारका विधान कर दिया है, पहलेके सत्पुरुष और ऋषि-महर्षि भी उसीका पालन करते आये हैं । ऋषियों-ने ब्रह्मचर्यके पालनसे ही पुण्यलोकोंपर अधिकार प्राप्त किया है, इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको ब्रह्मचर्यका पालन करके आत्मबल प्राप्त करना चाहिये । फिर वानप्रस्थके नियमसे वनमें रहकर फल-मूलका भोजन और पुण्य तीर्थोंमें भ्रमण करते हुए तपस्या करनी चाहिये । प्राणियोंकी हिंसासे बचे रहना चाहिये । इसके पश्चात् संन्यासी होकर भिक्षासे जीवन-निर्वाह करते हुए आत्मतत्त्वका चिन्तन करना चाहिये । भिक्षा लेने उस समय जाना चाहिये जब गृहस्थोंके घरोंमें रसोई-घरसे धूआँ निकलना बन्द हो जाय और मूसलसे धान फूटनेकी आवाज न सुनायी पड़े । इस प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । शुकदेव ! तुम भी स्तुति, नमस्कार तथा शुभाशुभ विषयोंका त्याग करके जो कुछ फल-मूल मिल जाय, उसीसे भूख मिटाते हुए वनमें अकेले विचरते रहो ।

शुकदेवजीने पूछा—पिताजी ! कर्म करना चाहिये और कर्मको त्याग देना चाहिये—ये जो वेदके दो तरहके वचन हैं, लोकदृष्टिसे विचार करनेपर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं । ये प्रामाणिक हैं या अप्रामाणिक ? विरोधके रहते हुए इनको शास्त्रीय वचन कैसे माना जा सकता है ? तथा दोनों ही प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं ? साथ ही यह भी बताइये कि कर्मोंका विरोध किये बिना मोक्षकी प्राप्ति किस तरह हो सकती है ?

व्यासजीने कहा—बेटा ! कर्म करने और न करनेके अलग-अलग अधिकारी हैं । ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ—ये कर्म करनेके अधिकारी हैं और संन्यासी कर्मोंका

त्याग करते हैं। अपने-अपने आश्रमके अनुसार शास्त्रोक्त नियमोंका पालन करनेसे सभी उत्तम गति प्राप्त करते हैं। यदि कोई एक मनुष्य भी राग-द्वेषका त्याग करके प्रमत्तः इन चारों आश्रमोंके धर्मोंका विधिवत् पालन कर ले तो उसे अवश्य ही परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। ये चारों आश्रम ब्रह्ममें ही प्रतिष्ठित हैं और ब्रह्मत्क पहुँचानेके लिये चार सीढ़ियोंके समान माने गये हैं। इनका सहारा लेनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें पहुँचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। धर्म और अर्थमें कुशलता प्राप्त करनेके लिये अपनी आयुके एक चौथाई भाग अर्थात् पच्चीस वर्षोंतक गृह या गृहपुत्रकी सेवामें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये। ब्रह्मचारी किसीकी निन्दा न करे, गृहके सो जानेके परवात् शयन करे और उनके जानेसे पहले ही उठ जाय। गृहके घरमें एक शिष्य या दासके करनेयोग्य जो कुछ भी कार्य हो, उसे स्वयं पूरा करे। सदा गृहके पास मौजूद रहे। हर एक काम करनेके लिये तैयार रहे और उसकी अच्छी-जानकारी रखे। कामसे छुट्टी मिलनेपर अध्ययन करे। सबके प्रति उदार रहे, किसीपर कलङ्क न लगावे। आचार्यके बुलानेपर तुरंत उनकी सेवामें उपस्थित हो जाय। बाहर-भीतरसे पवित्र, प्रत्येक कार्यमें कुशल और गुणवान् बने। बात करते समय बीच-बीचमें ऐसा प्रसंग उपस्थित करे जो सुननेवालेको अनुकूल और

प्रिय जान पड़े। इन्द्रियोंको अपने वशमें करके गृहकी ओर शान्तदृष्टिसे देखे। आचार्य जबतक भोजन और जलपान न कर लें तबतक स्वयं भी न करे। उनके बैठनेसे पहले न बेंठे और शयन करनेसे पहले न सोये। दोनों हाथ फँसकर अपने दाहिने हाथसे गृहका दाहिना चरण और बायें हाथसे उनका बायाँ चरण छूकर प्रणाम करे। इस प्रकार अभिवादनके परवात् हाथ जोड़कर गृहसे कहे 'मगवन्! अब मुझे पढ़ाइये। मैंने अमुक काम पूरा कर लिया है और अमुक कार्य अभी कहेँगा। इसके सिवा और भी जिन कामोंके लिये आप आता दोगे उन्हें भी शीघ्र पूर्ण कहेँगा।' इस तरह सब बातें विधिवत् निवेदन करके गृहकी आत्मा सेकर फिर दूसरा काम करे और काम ही जानेपर पुनः उसका समाचार गृहजीको बतावे। जिन-जिन गर्वों और रसोंका सेवन ब्रह्मचारीके लिये निषिद्ध है उनका यह त्याग करे। समावर्तन संस्कारके बाद ही वह उनका उपयोग कर सकता है। यही धर्मशास्त्रका नियम है। इसके सिवा और भी ब्रह्मचारीके जितने नियम शास्त्रोंमें विस्तारके साथ बताये गये हैं, उन सबका यह पालन करे तथा सदा गृहके समीप रहे। इस प्रकार यथाराहित सेवा करके गृहको प्रसन्न करे और ब्रह्मचर्यका व्रत पूरा हो जानेपर उन्हें गृहदक्षिणा देकर शास्त्रोक्त विधिसे अनुसार समावर्तन करे। इसके बाद वह गृहस्थाश्रममें आनेका अधिकारी होता है।

गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमका वर्णन

व्यासजी कहते हैं—वेदा! गृहस्थ पुरुष अपनी आयुका दूसरा भाग गृहस्थ आश्रममें व्यतीत करे। धर्मानुसार स्त्रीसे विवाह करके उसके साथ अग्निकी स्थापना करे और नित्य नियमके साथ रहकर दोनों समय अग्निहोत्र करे। गृहस्थ ब्राह्मणके लिये विद्वानोंने चार प्रकारकी आजीविका बतलायी है—(सातभरके लिये) एक कौटिल्य धान भरकर रखना, (महीनेभरके लिये) कुंडेभर अन्नका संप्रह करना, दिनभरके लिये अन्न रखना अथवा काफ़ीती वृत्तिसे रहना। इनमें पहलीकी अपेक्षा दूसरी-तृतीयकी श्रेष्ठ है। पहली श्रेणीके अनुसार जीविका चलानेवाले ब्राह्मणको यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान-प्रतिग्रह—ये छः कर्म, दूसरी श्रेणी-वालेको अध्ययन, यजन और दान—ये तीन कर्म तथा तीसरी श्रेणीवालेको अध्ययन और दान—ये दो ही कर्म करने चाहिये। चौथी श्रेणीवालेको केवल ब्रह्मयज्ञ (वेदाध्ययन) करना उचित है। गृहस्थोंके लिये शास्त्रोंमें बहुतसे श्रेष्ठ नियम बताये गये हैं। वह केवल अपने ही भोजनके लिये

रसोई न बनावे (अपितु देवता, पितर और अतिथियोंके उद्देश्यसे बनावे)। दिनमें कभी न सोये, रातके पहले और पिछले भागमें भी नौद न से। सवेरे और शाम दो ही व्रत भोजन करे, बीचमें कुछ न खाय। श्रुतिकालके अतिरिक्त समयमें स्त्री-सहवास न करे। सदा इस बातका ध्यान रखे कि 'मिरे घरपर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि भूला तो नहीं रहा, उसके आदर-सत्कारमें कोई कमी तो नहीं रह गयी?' यदि द्वारपर अतिथिके रूपमें वेदके विद्वान्, स्नातक, योगिय, ह्य (यथावशेष अन्न)-कथ्य (धादका अन्न) भोजन करनेवाले, जितेन्द्रिय, त्रियानिष्ठ और तपस्वी आ जायें तो उनकी विधिवत् पूजा करके उन्हें ह्य और कथ्य समर्पण करने चाहिये। जो धार्मिकताका ढोंग दिखानेके लिये अपने नल और बाल बढ़ाकर आया हो, अपने ही मुँहसे अपने किमै हुए धर्मका विनाशन करता हो, अकारण अग्निहोत्रका त्याग कर चुका हो अथवा गृहके साथ कपट करनेवाला हो—ऐसा मनुष्य भी गृहस्थके घर अन्न पानेका अधिकारी है। ब्रह्मचारी

और संन्यासीको तो सदा ही अन्न देना चाहिये । तात्पर्य यह कि गृहस्थ पुरुष उत्तम ब्राह्मणसे लेकर चाण्डालतकको योग्यतानुसार अन्न प्रदान करे ।

गृहस्थको सदा विधस और अमृत अन्नका भोजन करना चाहिये । पोष्य वर्गको भोजन करानेके बाद जो अन्न बचता है, उसे विधस कहते हैं और पञ्चयज्ञसे अवशिष्ट अन्न अमृत कहलाता है । गृहस्थ पुरुष अपनी ही स्त्रीसे प्रेम करे, इन्द्रियोंको वशमें करके जितेन्द्रिय बने और किसीके दोष न ढूँढ़े । वह ऋत्विज्, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, जाति-भाई, सम्बन्धी, माता, पिता, कुटुम्बकी स्त्री, भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा सेवकोंके साथ कभी विवाद न करे । जो इन सबके साथ कलह नहीं करता, वह सब पापोंसे छूट जाता है । इनके अधीन रहनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण लोकोंपर विजय पाता है । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । आचार्य ब्रह्मलोकका स्वामी है और पिता प्रजापतिलोकका ईश्वर है । अतिथि इन्द्रलोकके, ऋत्विज् देवलोकके और जाति-भाई विश्वेदेवलोकके अधिकारी हैं—इन सबकी सेवासे उन-उन लोकोंकी प्राप्ति होती है । मामा और माताको संतुष्ट करनेसे पृथ्वीलोकपर अधिकार होता है । वृद्ध, बालक, रोगी और दुर्बल प्राणियोंकी सेवासे आकाशपर विजय प्राप्त होती है । बड़ा भाई पिताके समान है, स्त्री और पुत्र अपने ही शरीर हैं तथा सेवकगण अपनी छायाके समान हैं । बेटे तो और भी दयाके योग्य है । इसलिये इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भी हो जाय तो बुरा न मानकर सह लेना चाहिये ।

गृहस्थधर्मका पालन करनेवाले विद्वान्को निश्चिन्त होकर धर्मका आचरण करते रहना चाहिये और धनके लोभसे किसी कर्मका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये । गृहस्थ ब्राह्मणके लिये कुम्भधान्य (अर्थात् बड़े कुंडेमें महीनेभर खानेके लिये धान्य भरकर रखना), उच्छशिल (रोज-रोज विखरे हुए अन्नके दाने चुनना अथवा खेत कट जानेपर उसमें गिरे हुए धान्य आदिके बालोंका संग्रह करना) तथा कापोती वृत्ति (फ्यूतरकी तरह भूमिपर पड़े हुए अन्नके दाने चुनकर इकट्ठा करना)—ये तीन आजीविकाएँ बतानी गयी हैं । इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तथा कल्याणका साधन है । इसी प्रकार चारों आश्रमोंमें भी पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आश्रम ही कल्याणकारी माने गये हैं । उन्नति चाहनेवाले पुरुषको शास्त्रोक्त आश्रमधर्मोंका पूर्णतया पालन करना चाहिये । जिस राज्यमें पूर्वोक्त तीन प्रकारकी वृत्तियोंसे जीविका चलानेवाले पूजनीय ब्राह्मण रहते हैं, उसकी वृद्धि होती है । इन वृत्तियोंसे आनन्द-

पूर्वक जीवन-निर्वाह करनेवाला गृहस्थ अपनी दस पीढ़ीके पूर्वजोंको तथा दस पीढ़ीतक आगे होनेवाली संतानोंको पवित्र कर देता है और उसे विष्णुलोकके सदृश उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है अथवा वह जितेन्द्रिय महात्माओंको मिलनेवाली श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है । उदार चित्तवाले गृहस्थोंको विमानसहित परम रमणीय स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है । ब्रह्माने गृहस्थ आश्रमको स्वर्ग-प्राप्तिका साधन बनाया है, अतः जो क्रमशः इस द्वितीय आश्रम—गार्हस्थ्यमें प्रवेश करके उसके नियमोंका पालन करता है, वह स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है । इसके बाद वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करना चाहिये । यह तृतीय आश्रम है तथा गृहस्थ आश्रमसे भी श्रेष्ठ माना गया है । अब इसके धर्म बताता हूँ, सुनो—

गृहस्थ पुरुषको जब अपने सिरके बाल सफेद दिखायी दें, शरीरमें स्फुरियाँ पड़ जायँ और पुत्रको भी पुत्रकी प्राप्ति हो जाय तो अपनी आयुका तीसरा भाग व्यतीत करनेके लिये वानप्रस्थ आश्रममें रहना चाहिये । वह गृहस्थाश्रममें जिन अग्नियोंकी उपासना करता था, उनका वानप्रस्थाश्रममें भी सेवन करता रहे । प्रतिदिन देवताओंकी पूजा करे, नियमके साथ रहे, नियमानुकूल भोजन करे, दिनके छठे भाग अर्थात् तीसरे पहरमें एक बार अन्न ग्रहण करे और प्रमादसे बचा रहे । गार्हस्थ्यकी ही भाँति अग्निहोत्र, बैसी ही गो-सेवा तथा उसी प्रकार यज्ञके सम्पूर्ण अङ्गोंका पालन करना वानप्रस्थका धर्म है । वनवासी मुनि—बिना जोती हुई पृथ्वीसे पैदा हुआ धान, जौ, नीवार तथा विधस (अतिथियोंको देनेसे बचे हुए) अन्नसे जीवन-निर्वाह करे । वानप्रस्थमें भी पञ्चमहायज्ञोंका विधान है । उसमें भी चार प्रकारकी वृत्तियाँ बतलायी गयी हैं, उन्हींके अनुसार कोई दिनभरके लिये, कोई एक मासके लिये, कोई एक वर्ष और कोई बारह वर्षके लिये अतिथि-सेवा तथा यज्ञके उद्देश्यसे अन्न संग्रह करके रखते हैं । वानप्रस्थीको वर्षके समय खुले मैदानमें और हेमन्त ऋतुमें पानीके भीतर खड़ा रहना चाहिये । गर्मके दिनोंमें पञ्चाग्निसे शरीरको तपाना तथा सदा स्वल्प भोजन करना चाहिये । वानप्रस्थी महात्मा जमीनपर लोटते, पंजोंके बल खड़े होते, एक स्थानपर आसन लगाकर बैठते तथा तीनों काल स्नान और संध्या करते हैं । कुछ लोग कच्चे अन्नको दाँतसे चबाकर खाते हैं, कुछ लोग पत्थरपर कूटकर भोजन करते हैं और कोई-कोई श्वेतपक्ष या कृष्णपक्षमें एक बार जौकी लपसी पीकर रह जाते हैं । कितने ही, समयानुसार जो कुछ मिल गया, वही खाकर जीवन-निर्वाह करते हैं । कोई कंद-मूलसे, कोई फलोंसे और कोई-कोई-फूलोंसे ही जीविका चलाते हैं । इस प्रकार वानप्रस्थ-आश्रममें निवास करनेवाले पुरुष बड़े कठोर

नियमोंका पालन करते हैं, उनके लिये उपर्युक्त नियमोंके सिवा और भी बहुत-से नियम शास्त्रोंमें बताये गये हैं।

तात। सत्य संकल्पबाने यापावर नामक ऋषि, धर्ममें प्रवीणताको प्राप्त हुए बहुतेरे उग्र तपस्वी मुनि और असंख्य ब्राह्मण वानप्रस्थ-आश्रम स्वीकार कर चुके हैं। बातखिल्य और संकत भी वानप्रस्थी ही थे। ये सभी जितेन्द्रिय महात्मा धर्ममें रहकर दुष्कर कर्मोंके द्वारा बलेश सहन करते हुए सदा धर्ममें लगे रहते थे; इसलिये उनका संकल्प सिद्ध हो गया था। वे ताराओंसे भिन्न होकर भी ज्योतिर्मय स्वरूपमें दिखायी देते हैं, कोई भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता है।

इस प्रकार वानप्रस्थकी अवधि पूरी करनेके बाद जब आपका चौथा भाग शेष रह जाय, बूढ़ावस्थासे शरीर दुर्बल हो जाय और रोग सताने लगे तो उस आश्रमका परित्याग करके संन्यास-आश्रम ग्रहण करना चाहिये। संन्यासकी दीक्षा लेते समय एक दिनमें पूरा होनेवाला यज्ञ करके अपना सम्पूर्ण धन दक्षिणामें दे डालें। फिर आत्मन्नाका ही यजन, आत्मामें ही प्रेम और आत्मके ही साथ क्रीडा करे। सब प्रकारसे आत्मन्नाका ही आश्रय ले। अग्निहोत्रकी अग्निपोंको आत्मामें आरोपित करके समस्त संप्रहोंका परित्याग कर दे। अथवा सुरंत सम्पन्न किये जानेवाले (ब्रह्मयज्ञ आदि) यज्ञों तथा वराण्णमास अर्घ्य इष्टियोंका तबतक-पालन करता रहे जबतक आत्मयज्ञका अभ्यास न हो जाय। आत्मयज्ञकी विधि यों है—अपने हृदयको गार्हपत्य, मनको अन्वाहार्ण्यपवन और मुखको आहवनीय अग्नि मानकर तीनों अग्निपोंको अपने शरीरमें ही स्थापित करे; फिर बेहृषात होनेतक प्राणाग्निहोत्रकी विधिसे यजन करता रहे। संन्यासी अन्नको निन्दा न करके यजुर्वेदके 'प्राणाय स्वाहा' आदि * शक्तोंका उच्चारण करता हुआ पहले अन्नके पाँच प्रास ग्रहण करे। (फिर आचमनके परश्चात् मौनपूर्वक शेष अन्न भोजन करे)।

जो ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय-दान देकर संन्यासी हो जाता है, वह मरनेके परश्चात् तेजोमय लोकमें जाता है और अन्तमें मोक्ष प्राप्त करता है। आत्मज्ञानी पुरुष मुशोल एवं पापरहित होता है, वह इस लोक और परलोकके लिये भी कोई कर्म करना नहीं चाहता। क्रोध, मोह, संघि और विग्रहका त्याग करके वह सब ओरसे उदासीन-सा रहता है। जो अहिंसा आदि धर्मों और शौच, संतोष आदि नियमोंका पालन करनेमें कभी कष्टका अनुभव नहीं करता तथा संन्यास-

आश्रमका विधान करनेवाले शास्त्रीय बचनोंके अनुसार त्याग-भयी अग्निमें अपने सर्वस्वकी आहुति करनेमें उत्साह दिखाता है, उसे इच्छानुसार गति (मुक्ति) प्राप्त होती है; ऐसे जितेन्द्रिय एवं धर्मपरायण आत्मज्ञानीकी मुक्तिके विषयमें तनिक भी संदेहके लिये स्थान नहीं है।

जो आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करके एककी विचरता रहता है, वह सर्वव्यापक होनेके कारण न तो स्वयं किसीका त्याग करता है और न दूसरे ही उसका त्याग करते हैं। संन्यासी कभी अग्निमें हवन न करे, घर या मठ बनाकर न रहे, केवल भिक्षा लेनेके लिये गाँवोंमें जाय और दूसरे दिनके लिये अन्न-संग्रह न करे, वह चित्तवृत्तियोंकी रोके,हलका और नियमानुकूल भोजन करे, दिन-रातमें केवल एक बार अन्न ग्रहण करे। पानी पीनेके लिये कमण्डलु रखके, वृक्षकी जड़में निवास करे, जो देखनेमें सुन्दर न हो ऐसा वस्त्र धारण करे, किसीको साय न रखे और सब प्राणियोंकी उपेक्षा करे—ये सब संन्यासीके लक्षण हैं। वह किसीसे भी न कहने योग्य बात न करे, दूसरेकी भी बंसी बात न सुने तथा ब्राह्मणोंके प्रति किसी तरह कटुबचन न निकल जाय, इसके लिये विशेष सावधान रहे। जिससे ब्राह्मणोंका हित हो ऐसा ही वचन बोले, अपनी निन्दा सुनकर भी चुप रह जाय—यही भव-व्याघ्रसे छूटनेकी दवा है। जो अपने सर्वव्यापी स्वरूपसे स्थित होनेके कारण अकेले ही सम्पूर्ण आकाशमें परिपूर्ण-सा हो रहा है तथा जो नाम-रूपमें भिन्न्या वृद्धि रखनेके कारण लोमोंसे भरे हुए स्थानकी भी सूना समझता है, उसे ही देवता-लोग ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञानी) मानते हैं। जो जिस किसी भी (वस्त्र, बत्कल आदि) वस्तुसे अपना शरीर ढक लेता है, समयसे जो कुछ रुखा-सूखा मिल जाता है उसे ही भोजन करता है और जहाँ कहीं स्थान मिल जाय वहाँ सो रहता है, जिसकी वृष्टिमें स्त्रियाँ मूर्च्छे समान हैं, जो मान या अपमान प्राप्त होनेपर शोक नहीं करता तथा जिसने सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय दान कर दिया है, उसे ही देवतालोग ब्राह्मण समझते हैं। संन्यासीको न जीवनसे प्रेम करना चाहिये न मृत्युसे। जैसे सेवक अपने स्वामीके आदेशकी बाट जोहता रहता है, उसी तरह उसे भी कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। मन और वाणीमें कोई दोष नहीं आने देना चाहिये और सब पापोंसे मुक्त होकर सर्वथा शद्धहीन हो जाना चाहिये। जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गयी है, उसे संसारमें क्या भय है? जो किसी भी प्राणीसे नहीं डरता, जिससे कोई भी प्राणी नहीं डरते, उस मोहमुक्त पुरुषको किसीसे भी भय नहीं होता। जो हिंसा न करनेवाला, समदशाँ, सत्यवादी, धर्मवान्, जितेन्द्रिय और सबको शरण देनेवाला है, वह अत्यन्त उत्तम गति

* ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ ध्यानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। ये पाँच मन्त्र हैं। इनमेंसे एक-एककी पढ़कर एक-एक धाम ग्रहण करना चाहिये।

ता है। इस प्रकार जो ज्ञानानन्दसे तृप्त होकर भय और
 अमानाओंसे रहित हो गया है, उसपर मृत्युका जोर नहीं
 लगता; वह स्वयं ही मृत्युको लौंघ जाता है। जो सब
 प्रकारकी आसक्तियोंसे छूटकर मुनिवृत्तिये रहता है,
 एकामकी भाँति निर्लेप और स्थिर है, किसी भी वस्तुको
 अपनी नहीं मानता, एकामकी विचरता और शान्तभावसे
 रहता है; जिसका जीवन धर्मके निये और धर्म भगवान्के
 निये होता है, जिसके दिन और रात शुभ कर्मोंमें ही व्यतीत
 होते हैं, जो निष्काम होनेके कारण सकाम कर्मोंका आरम्भ
 नहीं करता, नमस्कार और स्तुतिये दूर रहता तथा सब प्रकार-
 के चन्धनोंसे मुक्त होता है, वही देवताओंके मतमें ब्राह्मण
 है। सम्पूर्ण प्राणी सुखमें प्रसन्न होते और दुःखसे घबराते
 हैं, अतः जिते प्राणियोंपर भय आता देखकर खेद होता है,
 इस श्रद्धालु पुरुषको भयदायक कर्म नहीं करना चाहिये।
 तीर्थोंको अभयकी दक्षिणा देना सब दानोंसे बढ़कर है। जो
 गृहसे ही हिंसाका त्याग कर देता है, वह सब प्राणियोंसे
 नर्भय होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो न तो स्वयं निन्दाके
 रोष कोई काम करता और न दूसरोंकी निन्दा करता है,
 वही ब्राह्मण परमात्माका दर्शन कर सकता है। जिसके
 मोह और पाप दूर हो गये हैं, वह इस लोक और परलोकके
 भोगोंमें आसक्त नहीं होता। ऐसे संन्यासीको रोष और
 मोह नहीं छू सकते। वह मिट्टीके घेले और सोनेको समान
 समझता, पशुकीयाँका अग्निमान त्याग देता और संघियिग्रह
 तथा मान-अपमानसे रहित हो जाता है। उसकी वृत्तिये
 न कोई प्रिय होता है न अप्रिय। वह उवासीनकी भाँति
 सर्वत्र विचरता रहता है।

शुभदेय । वेद, इन्द्रिय और मन आदि जो प्रकृतिके
 विपकार हैं, ये क्षेत्रज्ञ (आत्मा) के ही आधारपर स्थित रहते
 हैं। ये जब होनेके कारण क्षेत्रज्ञको नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ
 उन सबको जानता रहता है। जैसे चतुर सारथि अपने
 यशमें किये हुए बलवान् और उत्तम घोड़ोंसे अच्छी तरह
 काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने यशमें किये हुए मन
 तथा इन्द्रियोंके द्वारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इन्द्रियोंकी
 अपेक्षा उनके विषय, विषयोंमें मन, मनसे बुद्धि, बुद्धिसे
 महत्तत्त्व, महत्तत्त्वसे अल्पत (मूलप्रकृति) और अल्पतसे
 अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ है। परमात्मासे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं
 है। वही सबकी सीमा और परम शक्ति है। सम्पूर्ण प्राणियोंके
 भीतर छिपा हुआ वह परमात्मा प्रकाशमें नहीं आता। उसे
 तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं उत्तम बुद्धिसे
 देख पाते हैं। संन्यासीको चाहिये कि वह मनसहित इन्द्रियों
 और उनके विषयोंको बुद्धिके द्वारा अन्तरात्मायें लीन करके

नानाप्रकारके व्यर्थोंका चिन्तन न करे। ध्यानके द्वारा मनको
 विषयकी ओरसे हटाकर उसे विवेकके द्वारा स्थिर करे
 और शान्तभावसे स्थित हो जाय—ऐसा करनेसे वह अमृत-
 पदको प्राप्त होता है। जो इन्द्रियोंके यशमें रहता है, वह
 मनुष्य विवेक-शक्तिको लो देता और अपनेको काम आदि
 शब्दोंके हाथोंमें सौंपकर मृत्युके चंगुनमें फँस जाता है।
 इसलिये सब प्रकारके संकल्पोंका नाश करके चित्तको सूक्ष्म
 बुद्धिमें लीन करे, इससे वह कालपर भी विजय पा जाता है।
 इतना ही नहीं, चित्त प्रसन्न होनेके कारण वह संन्यासी शुभ
 और अशुभका त्याग करके आत्मनिष्ठ होकर अनन्त आनन्द
 (मोक्ष-मुक्त) का अनुभव करता रहता है। प्रसन्नताका
 लक्षण यह है कि सदा सुषुप्तिके समान सुखका अनुभव होता
 रहे और वायुरहित स्थानमें निष्काम्य दीप-शिलाकी भाँति
 मन कभी चञ्चल न हो।

जो भिताहारी और शुद्धचित्त होकर रातके पहले और
 पिछले भागमें आत्माको परमात्माके ध्यानमें लगाता है, वही
 अपने अन्तःकरणमें परमात्माका दर्शन करता है। बेटा !
 मैंने जो उपदेश दिया है वह परमात्माका ज्ञान करानेवाला
 शास्त्र है, सम्पूर्ण उपनिषदोंका रहस्य है। केवल अनुमान या
 आगमसे ही इसका ज्ञान नहीं होता, अनुभवसे ही यह ठीक-
 ठीक समझमें आता है। धर्म और शक्तिके जितने उपास्थान
 हैं, उन सबका यह सारभूत है। श्रद्धेयकी दस हजार श्रद्धाओं-
 का मन्थन करके मैंने इस उपदेशामृतको निकाला है। जैसे
 दहीसे मक्खन निकलता और फाटसे आग प्रकट होती है,
 उसी प्रकार मैंने वेदसे तुम्हारे लिये इस ज्ञानको निकाला
 है। तुम व्रतधारी स्नातकोंको ही इस शास्त्रका उपदेश
 करना। जिसका मन शान्त नहीं है, इन्द्रियों यशमें नहीं हैं
 तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञानका उपदेश नहीं करना
 चाहिये। जो वेदसे अनभिज्ञ, अभयत, दोषदर्शी, कुटिल,
 आज्ञा न माननेवाला, व्यर्थ तर्क-वितर्क करनेवाला और
 दूगुलखोर है, वह भी इस ज्ञानका अधिकारी नहीं है। प्रशंस-
 नीय, शान्त, तपस्वी तथा सेयापरायण शिष्य और प्रिय पुत्रको
 ही इस गूढ धर्मका उपदेश देना चाहिये, दूसरे किसीको नहीं।
 यदि कोई रत्नोंसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी दे तो भी तत्त्ववेत्ता
 पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञानकी ही श्रेष्ठ समझते हैं। अब
 मैं तुम्हारे प्रश्नके अनुसार इससे भी गूढ अध्यात्मज्ञानका
 उपदेश करूँगा जो मानवीय ज्ञानसे बाहर है, जिते महर्षि
 ही जानते हैं तथा जिसका सम्पूर्ण उपनिषदोंमें वर्णन किया
 गया है। इस समय तुम्हें जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ जान पड़ती हो
 तथा जिसके विषयमें तुम्हारे मनमें संदेह हो रहा हो, उसे पूछो
 और उसके उत्तरमें मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान देकर सुनो।

अध्यात्मज्ञान और उसके साधनोंका वर्णन

शुकदेवजीने कहा—भगवन्! अध्यात्मज्ञानका विस्तारसे वर्णन कीजिये।

व्यासजीने कहा—बेटा! मैं अध्यात्मकी व्याख्या करता हूँ, सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पञ्चमहाभूत सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें स्थित हैं। ये सर्वत्र एक-से होनेपर भी समुद्रकी सहरोके समान प्रत्येक जीवमें भिन्न-भिन्न दिखायी देते हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत् पञ्चभूत-मय ही है। पञ्चभूतोंसे ही सबकी उत्पत्ति होती है और उन्हींमें सबका लय बतया गया है। सृष्टिकर्त्ता ब्रह्माजीने समस्त प्राणियोंमें उनके कर्मानुसार न्यूनाधिक रूपमें पञ्चमहाभूतोंका संनिवेश किया है।

शुकदेवजीने पूछा—पिताजी! शरीरके अवयवोंमें जो न्यूनाधिक रूपमें पञ्चमहाभूतोंका संनिवेश हुआ है, उसकी पहचान कैसे हो सकती है? शरीरमें इन्द्रियाँ भी हैं और गुण भी। इनमेंसे कौन किस महाभूतके कार्य हैं—इसका ज्ञान कैसे हो सकता है?

व्यासजीने कहा—बेटा! मैं इस विषयका क्रमशः प्रतिपादन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। शब्द, श्रोत्रेन्द्रिय और शरीरके सम्पूर्ण छिद्र आकाशसे उत्पन्न हुए हैं। प्राण, चेष्टा और स्पर्शकी उत्पत्ति वायुसे हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल—ये तीनों अग्निके कार्य हैं। रस, रसना और स्नेह—ये जलके गुण हैं। गन्ध, नासिका और शरीर-भूमिके कार्य हैं। यह इन्द्रियोंसहित पाञ्चभौतिक विकार बतलाया गया है। गुणोंमें स्पर्श वायुका, रस जलका, रूप तेजका, शब्द आकाशका और गन्ध भूमिका कार्य है। जैसे कण्डूआ अपने अङ्गोंको फँसाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी तरह बुद्धि सम्पूर्ण इन्द्रियोंको विषयोंकी ओर फँसाकर फिर समेट लेती है। बुद्धि ही गुणोंका स्वरूप धारण करती है और मनसहित सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भी बुद्धिरूप ही हैं। बुद्धिके अभावमें गुण या इन्द्रियोंका अस्तित्व ही कहाँ है? मनुष्यके शरीरमें पाँच इन्द्रियाँ हैं, छठा तत्त्व मन है, सातवाँ तत्त्वबुद्धि और आठवाँ क्षेत्रज्ञ है। आँसू देखनेका ही काम करती है, मन संदेह करता है और बुद्धि उसका निश्चय करती है; किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबका साक्षी कहलाता है। सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण मनसे उत्पन्न हुए हैं और सब प्राणियोंमें समान रूपसे रहते हैं, उनकी पहचान उनके कार्योंद्वारा होती है। जब हृद्य, प्रेम, आनन्द, समता और स्वल्पचित्तताका विकास हो तो सत्त्वगुणकी बुद्धि समझनी चाहिये। अभिमान,

असत्यमायण, लोभ, मोह और असहनशीलता—ये रजोगुणके चिह्न हैं! मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अज्ञानकी तमोगुणका कार्य जानना चाहिये।

शुकदेव! कर्म करनेमें तीन प्रकारसे प्रेरणा मिलती है, पहले तो मनमें माना प्रकारके भाव उठते हैं, फिर बुद्धि निश्चय करती है, तत्परचात् हृदय उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलताका विचार करता है। इसके बाद कर्ममें प्रवृत्ति होती है। इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन, मनसे बुद्धि और बुद्धिसे आत्मा श्रेष्ठ है। भिन्न-भिन्न विषयोंको ग्रहण करनेके लिये बुद्धि ही विकृत होकर नाना रूपधारण करती है, वही जब सुनती है तो श्रोत्र कहलाती है और स्पर्श करते समय स्पर्श इन्द्रियके नामसे पुकारो जाता है। वही देखते समय दृष्टि और रसास्वादन करते समय रसना हो जाती है तथा जब वह गन्धको ग्रहण करती है, उस समय प्राण-इन्द्रिय कहलाती है। इस प्रकार बुद्धिके इन विकारोंको ही इन्द्रिय कहते हैं। मनुष्य जब किसी बातकी इच्छा करता है तो उसकी बुद्धि मनके रूपमें परिणत हो जाती है। नेत्र आदि इन्द्रियाँ अलग-अलग प्रतीत होनेपर भी बुद्धिमें ही स्थित हैं, इन सबको अपने अधीन रखना चाहिये; क्योंकि जब मनुष्य अपनी इन्द्रियोंको अच्छी तरहसे यत्न कर लेता है तो जिस प्रकार दीपकके प्रकारोंमें किसी पस्तुका आकार स्पष्ट दिखायी देता है, उसी प्रकार उसे ज्ञानालोकमें आत्माका साक्षात् दर्शन होता है। जैसे अन्धकार दूर हो जानेपर सबको प्रकाश दिखायायी देता है, उसी प्रकार अज्ञानका नाश होनेपर ज्ञानस्वरूप आत्माका साक्षात्कार होने लगता है। जैसे जलचर पक्षी जलमें विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार भुक्त योगी संसारमें रहकर भी उसके गुण-दोषोंसे बचा रहता है। जो अपने पूर्वकृत कर्मोंका त्याग करके सदा परमात्माके चिन्तनमें ही लगा रहता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा ही जाता है और विषयोंमें कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्माकी नहीं जानते, किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है; क्योंकि वह गुणोंका द्रष्टा है। गुण और आत्माओंमें यही अन्तर है।

प्रकृति ही गुणोंको सृष्टि करती है। आत्मा तो उदासीनकी भाँति अलग रहकर देखा करता है। जैसे मकड़ी अपने शरीरसे तन्तुओंको सृष्टि करती है, उसी प्रकार प्रकृति ही समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थोंकी जननी है। किन्हीं का मत है कि तत्त्वज्ञानसे जब गुणोंका नाश कर दिया जाता है तो वे

फिर नहीं उत्पन्न होते, उनका सर्वथा बाध हो जाता है; क्योंकि उनका कोई चिह्न नहीं दिखायी पड़ता। इस प्रकार वे भ्रम या अविद्याके निवारणको ही मुक्ति मानते हैं। दूसरोंके मतमें त्रिविध दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन दोनों मतोंपर अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करके सिद्धान्तका निश्चय करे और अपने महत्स्वरूपमें स्थित हो जाय। आत्मा आदि-अन्तसे रहित है, उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोधको त्याग दे और सदा मात्सर्यरहित होकर विचरे। हृदयकी अविद्यामयी ग्रन्थिको, जो बुद्धिके चिन्तादि धर्मोंसे सुदृढ़ हो रही है, काटकर शोक और संवेहसे रहित तथा सुखी हो जाय। जैसे तैरनेकी कला न जाननेवाले मनुष्य यदि भरी हुई नदीमें कूद पड़ते हैं तो गोते खाते हुए दुःख उठाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस संसार-समुद्रमें डूबकर कष्ट भोगते रहते हैं; किंतु जो तैरना जानता है, वह जलमें भी स्थलकी ही भाँति चलता है, उसी तरह ज्ञानस्वरूप आत्माको प्राप्त हुआ तत्त्ववेत्ता पुरुष संसार-सागरसे पार हो जाता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंके आवागमनको जानता तथा उनकी

विषम अवस्थापर विचार करता है, उसे परम शान्ति प्राप्त होती है। ब्राह्मणमें इस ज्ञानको प्राप्त करनेकी सहज शक्ति होती है, मन और इन्द्रियोंका संयम तथा आत्माका ज्ञान—ये मोक्षप्राप्तिके लिये पर्याप्त साधन हैं। शम और आत्मज्ञानसे पुरुष अत्यन्त शुद्ध-शुद्ध हो जाता है। बुद्ध (ज्ञानी) का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है? बुद्धिमान् मनुष्य इस आत्मतत्त्वको जानकर कृतार्थ हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुषोंको जो सनातन गति प्राप्त होती है, उससे बढ़कर उत्तम गति और किसीको नहीं मिलती। कुछ लोग मनुष्योंको रोगी और दुःखी देखकर उनमें बोष-दूँढ़ते हैं और दूसरे लोग उनकी वह अवस्था देखकर शोक करते हैं। किंतु जिन्हें नित्य और अनित्यका विवेक है, वे न शोक करते हैं, न बोष-दृष्टि; ऐसे ही लोगोंको कुशल समझना चाहिये। कर्मपरायण मनुष्य निष्कामभावसे जिस कर्मका अनुष्ठान करते हैं, वह पहलेके किये हुए सकाम कर्मोंको नष्ट कर देता है; किंतु जो ज्ञानी है, उसके इस जन्म या पूर्वजन्मके किये हुए कर्म उसका भला या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते।

ब्रह्मज्ञानके उपाय, उसकी महिमा तथा कामरूपी वृक्षको काटनेका उपदेश

शुकदेवजीने कहा—पिताजी! अब आप उस धर्मका वर्णन कीजिये जो सब धर्मोंसे श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है।

व्यासजीने कहा—बेटा! मैं ऋषियोंके बतलाये हुए प्राचीन धर्मका, जो सब धर्मोंसे श्रेष्ठ है, वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बच्चोंको फायमें रखता है, उसी प्रकार मनुष्यको बुद्धिके बलसे अपनी प्रमयनशील इन्द्रियोंका यत्नपूर्वक संयम करना चाहिये। मन और इन्द्रियोंका एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मनसहित इन्द्रियोंको बुद्धिमें स्थापित करके अपने आपमें ही संतुष्ट रहे, नाना प्रकारके चिन्तनीय विषयोंका चिन्तन न करे। जिस समय ये इन्द्रियाँ अपने विषयोंसे हटकर बुद्धिमें स्थित हो जायँगी, उसी समय तुम्हें सनातन परमात्माका दर्शन होगा। धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान वह परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम महान् है; महात्मा ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं। पुरुष जलते हुए ज्ञानमय प्रदीपके द्वारा अपने अन्तःकरणमें ही आत्माका दर्शन करता है। शुकदेव! तुम भी इसी प्रकार आत्माका साक्षात्कार करके संवेन हो जाओ। उत्तम बुद्धिका आश्रय लेकर सब प्रकारके सांसारिक बन्धनोंसे छूट जाओगे और

प्रसन्नचित्त होकर ब्रह्मभावको प्राप्त होगे। उस अवस्थामें तुम्हें समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयका स्पष्ट दर्शन होगा। धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ एवं तत्त्वज्ञानी मुनियोंने संसार-सागरसे पार होनेके साधनको ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। बेटा! यह मैंने तुमसे सर्वव्यापी परमात्माके ज्ञानका साधन बतलाया है, जो कोई परम पवित्र, हितैषी और भक्त हो, उसीको इसका उपदेश करना चाहिये। यह परम गोपनीय, गुह्य ज्ञान आत्माका दर्शन करानेवाला है। इसका स्वयं ही अनुभव करना चाहिये। वह परब्रह्म परमात्मा दुःख-सुखसे परे और भूत-भविष्यका कारण है; वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। कोई स्त्री हो या पुरुष, जो उस ब्रह्मको जान लेता है, उसका संसारमें पुनर्जन्म नहीं होता। मोक्षकी सिद्धिके लिये ही इस आत्मज्ञानरूपी धर्मका उपदेश किया जाता है। बेटा! सब प्रकारके मतोंने इस विषयका जैसा प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है।

गन्ध और रस आदि विषयोंमें राग-द्वेषका न होना, सुखकी आसक्तिसे दूर रहना और मान-बड़ाई, यश तथा कीर्तिकी इच्छाका त्याग करना—यही तत्त्वज्ञानी ब्राह्मणका आचार है। गुरु-सेवापरायण होकर ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक सम्पूर्ण वेदोंके पढ़ने और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेनेमात्रसे

ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने कुटुम्बकी भाँति समझकर उनपर दया करता और सर्वत्र तथा सब वेदोंका तत्त्वज्ञ होकर मृत्युको अपने अधीन कर लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। विधिकी परित्याग करके नाना प्रकारकी इष्टियों और बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले प्रयत्नोंका अनुष्ठान करनेमात्रसे ही किसीको ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हो जाता। जिस समय वह दूसरे प्राणियोंसे नहीं डरता और दूसरे प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते तथा जब वह इच्छा और द्वेषका सर्वथा परित्याग कर देता है, उसी समय उसे ब्रह्मभावकी प्राप्ति होती है और तभी वह वास्तवमें ब्राह्मण कहलायेंगेका अधिकारी होता है। जब मन, वाणी और शरीरसे किसी भी प्राणीकी बुराई करनेका विचार न उठे, उस समय मनुष्य ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। जगत्में कामना ही एकमात्र बन्धन है, दूसरा नहीं। जो कामनाके बन्धनसे छूट जाता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। जो अनेकों नदियोंसे सदा भरा जानेपर भी कभी अपनी मर्यादाका त्याग नहीं करता, ऐसे समुद्रमें जिस प्रकार सम्पूर्ण जल आकर समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार सम्पूर्ण भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें कोई विकार उत्पन्न किये बिना ही प्रवेश कर जाते हैं, वही परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं। वेदका सार है सत्य, सत्यका सार है इन्द्रियोंका संयम, उसका सार है दान और दानका सार है तपस्या। तपस्याका सार त्याग, त्यागका सार सुख, सुखका सार स्वर्ग तथा स्वर्गका सार भनोनिग्रह है। मनुष्यको संतोषपूर्वक रहकर शान्तिके उत्तम उपाय सत्त्वगुणको अपनानेकी इच्छा करनी चाहिये। सत्त्वगुण मनकी तृष्णा, शोक और संकल्पको जलाकर नष्ट करनेवाला है। पुरुषको शोकमूय, ममतासे रहित, शान्त, प्रसन्नचित्त और मात्स्यहीन होना चाहिये—इन छः लक्षणोंसे मुक्त मनुष्य जानातन्दसे तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो देहाभिमानसे मुक्त होकर सत्त्वप्रधान सत्य, दम, दान, तप, त्याग और शम—इन छः गुणों तथा श्रवण, मनन, निदिध्यासनरूप तीन साधनोंसे प्राप्त होनेवाले आत्माको इस शरीरमें रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परमशान्तिको प्राप्त होते हैं। जो उत्पत्ति और विनाशसे रहित, संस्कारमूय, स्वभावसिद्ध तथा शरीरके भीतर स्थित है, उस ब्रह्मको प्राप्त होनेवाला मनुष्य ही अक्षय आनन्दका भागी होता है। अपने मनको इधर-उधर जानेसे रोककर आत्मासे स्थापित करनेसे पुरुषको जिस सुख और संतोषकी

प्राप्ति होती है, उसका और किसी उपायसे प्राप्त होना असम्भव है। जिसको पाकर बिना भोजनके भी तृप्ति हो जाती है, जिस धनके होनेसे दरिद्र भी संतुष्ट रहता है, जिसका आश्रय मिलनेसे घृत आदिका सेवन किये बिना भी मनुष्य अपनेमें अनन्त बसका अनुभव करता है, उस ब्रह्मको जो जानता है, वही वेदोंका तत्त्वज्ञ है। जो अपनी इन्द्रियोंके द्वारोंको सब ओरसे रोककर नित्य ब्रह्मका चिन्तन करता रहता है, वही ब्राह्मण शिष्ट और आत्माराम कहलाता है। जो सामान्यतः सम्पूर्ण भूतों और भौतिक गुणोंका त्याग कर देता है, उसको सुखकी प्राप्ति होती है और उसका दुःख उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदयसे अन्धकार। गुणोंके ऐश्वर्यसे तथा कर्मोंका परित्याग करके विषयवासनासे रहित हुए उस ब्रह्मवेत्ता पुरुषको जरा और मृत्युका भय नहीं रहता। जब सम्पूर्ण आसक्तियेंसे छूटकर मनुष्य समतामें स्थित हो जाता है, उस समय इस शरीरमें रहकर भी इन्द्रियों और उनके विषयोंको पहुँचके बाहर हो जाता है। इस प्रकार जो कार्यमयी प्रकृतिकी सोमाको लोचकर कारणरूप ब्रह्ममें स्थित होता है, वह ज्ञानी परमपदको प्राप्त हो जाता है। उसे पुनः इस संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता।

मनुष्यकी हृदय-भूमिमें मोहहृषी बीजसे उत्पन्न हुआ एक अदृश्य वृक्ष है, उसका नाम है काम। क्रोध और अभिमान उसके स्क्वध हैं, काम करनेकी इच्छा उसका पाला है और अज्ञान उसकी जड़ है। प्रमादके जससे वह सींचा जाता है। असूया उसके पत्ते हैं तथा पूर्वजन्ममें किये हुए पाप उसके सार भाग हैं। शोक उसकी शाखा, मोह और चिन्ता ढालियाँ और भय उसके अङ्गुर हैं। उसमें तुम्हासपी लताएँ लिपटी हुई हैं। लोभी मनुष्य लोहेकी जंजीरोंके समान वासनाके बन्धनोंमें बंधकर उस वृक्षको चारों ओरसे घेरकर खड़े है और उसके फलका आस्वादन करना चाहते हैं। जो वासनाके बन्धनसे मुक्त होकर उस काम-वृक्षको काट डालता है, वही सांसारिक सुख-दुःखोंको त्यागकर उनके घेरते बाहर हो पाता है। परंतु जो मूल फलके लोभसे उस वृक्षपर चढ़ता है, वह विषकी गोली खाये हुए रोगीकी तरह मारा जाता है। उस काम-वृक्षकी जड़ें बहुत दूरतक फैली हुई हैं। कोई विद्वान् पुरुष ही ज्ञानके प्रभावसे समतारूप शस्त्रके द्वारा उसको बलपूर्वक काटते हैं। इस प्रकार जो कामनाओंको बन्धनरूप समझकर उन्हें निवृत्त करनेका उपाय जानता है, वह सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त हो जाता है।

पञ्चभूतोंके गुणोंका वर्णन तथा धर्मका प्रतिपादन

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी भगवान् व्यासजीने अपने पुत्र शुकदेवको पहले जिस प्रकार भूतोंके गुणोंका प्रतिपादन किया था, उसे मैं फिर तुम्हें बतला रहा हूँ; सुनो—स्थिरता, भारीपन, कठिनता, बीजको अङ्कुरित करनेकी शक्ति, गन्ध, गन्धको ग्रहण करनेकी शक्ति, मोटापन, संघात, आश्रय देना, सहनशीलता और धारणशक्ति—ये सब पृथ्वीके गुण हैं। शीतलता, रस, क्लेद (गोला होना), द्रवत्व (पिघलना), स्नेह (चिकनाहट), सौम्यभाव, जिह्वा, टपकना, बर्फ आदिके रूपमें जम जाना और पार्थिव पदार्थोंको पकाना—ये जलके गुण हैं। दुर्घर्ष होना, जलना, तपाना, परिपाक, प्रकाश, शोक, राग, शीघ्र-गमन, तीक्ष्णता और लपटोंका ऊपरकी ओर जाना—ये अग्निके गुण हैं। स्पर्श, वागिन्द्रियका स्थान, चलनेमें स्वतन्त्रता, बल, शीघ्रगामिता, शरीरके मलको बाहर निकालना, उल्लेखण आदि कर्म, श्वास-प्रश्वास आदिकी क्रिया, प्राण तथा जन्म और मरण—ये वायुके गुण हैं। शब्द, व्यापकता, छिद्र होना, किसी स्थूल पदार्थका आश्रय न होना, स्वयं किसी दूसरे आधारपर न रहना, अव्यक्तता (रूप और स्पर्शसे रहित होना), निर्विकारता, अप्रतिघात और भूतत्व—ये आकाशके गुण हैं। पञ्चमहाभूतोंके ये पचास गुण बताये गये हैं। धर्म, तर्क-वितर्कमें कुशलता, स्मरण, भ्रान्ति, कल्पना, क्षमा, शुभ संकल्प, अशुभ संकल्प और चञ्चलता—ये मनके नौ गुण हैं। इष्ट और अनिष्ट वृत्तियोंका नाश करना, उत्साह, चित्तको एकाग्र करना, संदेह और निश्चय—ये पाँच बुद्धिके गुण हैं।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! प्रायः सब लोगोंको धर्मके विषयमें संशय बना रहता है, इसलिये पूछता हूँ धर्मका क्या स्वरूप है ? उसकी उत्पत्ति कहाँसे हुई है ? इस लोकमें सुख पानेके लिये जो कर्म किया जाता है, वही धर्म है या परलोकमें कल्याण होनेके लिये जो कुछ किया जाता है, उसे धर्म कहते हैं ? अथवा लोक-परलोक दोनोंके सुधारके लिये किया जानेवाला कर्म ही धर्म कहलाता है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! वेद, स्मृति और सदाचार—ये तीन धर्मका ज्ञान करानेवाले हैं। कुछ विद्वान् अर्थको भी धर्मका परिचायक मानते हैं। शास्त्रोंमें जो धर्मानुकूल कार्य बतलाये गये हैं, परवर्ती मनुष्य उनका अपनी बुद्धिसे निरचय करके पालन करते हैं। लोक-व्यवहारका

निर्वाह करनेके लिये ही धर्मकी मर्यादा स्थापित की गयी है। धर्म करनेसे इस लोक और परलोकमें भी सुख मिलता है, जो धर्मका आश्रय नहीं ग्रहण करता, वह पापमें प्रवृत्त होकर उसके दुःखरूप फलका भागी होता है। सत्य बोलना शुभ कर्म है, सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है, सत्यने ही सबको धारण कर रक्खा है और सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। भयंकर कर्म करनेवाले पापी भी पृथक्-पृथक् सत्यकी शपथ खाकर आपसमें द्रोह और विवाद नहीं करते; अपितु सत्यका आश्रय लेकर ही अपने-अपने कर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं। वे यदि आपसकी सच्ची प्रतिज्ञाको भंग कर दें तो निःसंदेह परस्पर लड़-भिड़कर नष्ट हो जायें। दूसरोंका धन नहीं चुराना चाहिये, यह सनातनधर्म है। कुछ बलवान् लोग बलके धमंडमें नास्तिकताका आश्रय लेकर धर्मको दुर्बलोंका चलाया हुआ मानते हैं; किंतु जब भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं तो अपनी रक्षाके लिये उन्हें भी धर्मका ही सहारा लेना अच्छा जान पड़ता है। संसारमें कोई भी सबसे बढ़कर बलवान् या सुखी नहीं होता। इसलिये तुम्हें कभी भी अपने मनमें कुटिलताका विचार नहीं लाना चाहिये। जो किसीका कुछ विगाड़ नहीं करता, उसे चोर, बदमाश अथवा राजासे कभी भय नहीं होता। सदाचारी मनुष्य सदा निर्भय रहता है। गाँवमें भाये हुए हिरनकी तरह चोर सबसे डरता रहता है, वह अनेकों बार दूसरोंके साथ जंसा अत्याचार कर चुका है, दूसरोंको भी वैसा ही अत्याचारी समझता है; किंतु जिसका स्वभाव शुद्ध है, उसे कहींसे कोई खटका नहीं होता, वह सदा प्रसन्न रहता है और किसी दूसरेसे अपने अनिष्टकी आशङ्का नहीं करता। प्राणियोंके हितमें लगे रहनेवाले महात्माओंने दानको उत्तम धर्म बतलाया है; परंतु बहुत-से-धनवान् इसे गरीबोंका चलाया हुआ धर्म मानते हैं। लेकिन जिस दिन भाग्य फिर जाता है और धन नष्ट हो जानेसे वे धनी भी दीन—दर-दरके भिखारी हो जाते हैं, उस समय उनको भी यह दान-धर्म उत्तम जान पड़ता है। जगतमें कोई भी सबसे बढ़कर धनवान् या सुखी नहीं होता; इसलिये धनका अभिमान नहीं करना चाहिये।

मनुष्य दूसरोंके जिस बर्तावको अपने लिये ठीक नहीं समझता, दूसरोंके साथ भी वैसा बर्ताव न करे; क्योंकि जो अपने लिये अप्रिय है, वह दूसरोंके लिये भी अप्रिय हो सकता है। जो स्वयं दूसरेकी स्त्रीके साथ व्यभिचार करता है, वह और किसीको वही कर्म करता देख उसके विरुद्ध क्या कह

सकता है? उसे दूसरेको बुराचारी कहनेका कोई अधिकार नहीं है। किंतु वह मनुष्य भी यदि अपने स्त्रीके साथ दूसरे पुरुषको आसक्त या जाय तो उसे नहीं बरदास्त कर सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो, उसे दूसरेके प्राण लेनेका क्या अधिकार है? मनुष्य अपने लिये जो-जो सुख-सुविधा चाहता है, वही-वही दूसरेको भी मिले—ऐसा विचार कर अपने उपयोगसे जितना धन बच जाय उसे गरीबोंको बांट देना चाहिये; इसीलिये विधाताने धनकी वृद्धिके लिये कुसोदवृत्तिका प्रचार किया है। जिस

सन्मार्गपर चलनेसे देवताओंके दर्शन होते हैं, उसीपर सदा चलना चाहिये। यदि धनकी आय अधिक हो तो यज्ञ-दान आदि शुभ कर्मोंमें लगे रहना अच्छा है। सबको सुख पहुँचानेसे जो कुछ प्राप्त होता है, उसे धर्म माना गया है। इसी तरह दूसरोंको दुःख देना अधर्म है। युधिष्ठिर! यह मैंने संक्षेपसे धर्म और अधर्मका लक्षण बताया है। विधाताने पूर्वकालमें सत्पुरुषोंके जिस उत्तम आचरणका विधान किया है, वह विश्वके कल्याणकी भावनासे युक्त है और उससे धर्मके सूक्ष्म स्वरूपका ज्ञान होता है।

युधिष्ठिरका धर्मविषयक प्रश्न और भौष्मजीका उसके उत्तरमें जाजलि तथा तुलाधार वैश्यकता संवाद सुनाना

युधिष्ठिरने कहा—दादाजी! आपने जिस वेदप्रति-पादित सूक्ष्म धर्मका वर्णन किया है, उसका मुझे भी कुछ-कुछ ज्ञान है और मैं उसे अनुमानसे भी कह सकता हूँ। किंतु अभी मुझे कुछ पूछना बाकी रह गया है, उसका भी समाधान कीजिये। आपके कथनानुसार सत्पुरुषोंका आचरण धर्म है और जो धर्माचरण करते हैं, वे ही सत्पुरुष हैं—ऐसी दशामें अन्वोम्याधय दीप्य पड़नेके कारण सत्य और लक्षणका ठोक-ठोक विवेक नहीं हो पाता; फिर सदाचार धर्मका लक्षण कैसे हो सकता है? शास्त्रवेत्ताओंने धर्ममें वेदको ही प्रमाण बताया है; किंतु हमने सुना है कि युग-युगमें वेदोंका ह्रास होता है, अर्थात् धर्मके सम्बन्धमें जो वेदोंका निश्चय है, वह प्रत्येक युगमें बदलता रहता है। सत्ययुगके धर्म कुछ और हैं और त्रेता, द्वापर तथा कलियुगके कुछ और। मनुष्यकी शक्तिके अनुसार युग-धर्मोंकी व्यवस्था की गयी है। जब इस प्रकार वैदिक धर्मोंका समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है तो वेदके बचनको सत्य कहना लोकरञ्जनके सिवा और क्या है? वेदोंकी ही स्मृतियाँ निकली हैं और उनका सर्वत्र प्रचार है। यदि सम्पूर्ण वेद प्रामाणिक हों, तभी स्मृतियाँ भी प्रामाणिक हो सकती हैं। किंतु जब अपनी ही अज्ञानता स्मृतियोंके साथ वेदका विरोध ही तो उसे प्रमाणभूत शास्त्र कैसे माना जा सकता है? धर्मका स्वरूप हम जानें या न जानें, दूसरोंके बतानेपर भी उसे समझ सकें या नहीं, किंतु इतना स्पष्टरूपसे कहा जा सकता है कि धर्म छुरेकी धारसे भी सूक्ष्म और पर्वतसे भी अधिक भारी है। गीर्वाणके पांती पीनेके लिये बने हुए पीसल्लोंका तथा छेतकी क्यारियोंमें जल पहुँचानेके लिये बनी हुई नालियोंका जल जैसे शीघ्र ही सूख जाता है, उसी

प्रकार वैदिक और स्मृतें सनतन धर्म धीरे-धीरे क्षीण होकर कालिके अन्तमें बिल्कुल विहायी नहीं देता; क्योंकि उस समय बहुतसे ब्रुट भी कामनासे, दूसरोंके कहनेसे तथा अन्याय्य कारणोंसे भी व्यर्थ धर्माचरणका ढोंग किया करते हैं; और मूर्खलोग इसीको धर्म मानते हैं। यही नहीं, वे साधु पुरुषोंके सच्चे धर्मको भी प्रत्यापन बताते हैं और उसका आचरण करनेवाले सत्पुरुषोंको पागल कहकर उनकी हँसी उड़ाया करते हैं।

भौष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! इस विषयमें तुलाधार-वैश्यकता जाजलि ऋषिके साथ जो धर्मविषयक संवाद हुआ था, उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। जाजलि नामके एक ब्राह्मण थे, जो सदा वनमें रहा करते थे, उन्हें अपने तपोबलसे सम्पूर्ण लोकोंको देखने की शक्ति प्राप्त हो गयी थी। युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! जाजलिनने पूर्वकालमें कौन-सा दुष्कर तप किया था, जिससे उन्हें उत्तम तिष्ठि प्राप्त हुई थी?

भौष्मजीने कहा—बेटा! जाजलिमुनि षष्ठी कठोर तपस्यामें प्रवृत्त हुए थे। ये प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्याके समय स्नान करके अग्निहोत्र करते तथा दानप्रत्येके नियमोंका पालन करते हुए सदा स्वाध्यायमें लगे रहते थे। वनमें रहकर तप करते हुए वे कपिके दिनोंमें खुले आकाशके मोचे सोते और हेमन्तऋतु (सर्दों) में पानीके भीतर बैठ कर सोते थे। इसी तरह गर्मके महानिर्गम कड़ी धूप और लूका कष्ट सहते थे। जिसपर सोनेमें दूसरोंको महान् कष्ट हो सकता है, ऐसे बिजौनोंके ऊपर जमीनपर ही सोया करते थे। जब आकाशसे मूसलाधार वृष्टि होती, उस समय अपने

बछड़े चन्द्रमाके स्वरूप हैं। इनको बेचनेसे कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती। मैं तो तेल, घी, शहद और औषधोंकी विक्री करता हूँ, इसमें क्या हानि है? बहुत-से मनुष्य तो दंग और मच्छरोंसे रहित देशमें पैदा हुए और सुखसे पले हुए पशुओंकी उनकी माताओंसे अलग करके ऐसे देशोंमें ले जाते हैं, जहाँ दंग, मच्छर और कीचड़की अधिकता होती है। वहाँ उनपर भारी बोझ लादकर उन्हें अनुचित रूपसे कष्ट पहुँचाते हैं। उस अवस्थामें उन बेचारे पशुओंको बड़ा दुःख होता है। मैं तो इसमें झूणहृत्याप्ते भी बढ़कर पाप समझता हूँ। श्रुतिमें गौको अघ्न्या (अवघ्न्य) कहा गया है; फिर कौन उसे मारनेका विचार करेगा। जो पुरुष गाय और धँलोंको मारता है, वह महान् पाप करता है। इस तरहके

अमङ्गलकारी और भयंकर आचार इस जगत्में बहुत-से प्रचलित हैं। अमुक बात प्राचीन कालसे चली आ रही है, यही सोचकर आप उसकी बुराईयोंपर ध्यान नहीं देते। परिणामपर विचार करके ही किसी भी धर्मको स्वीकार करना चाहिये। लोगोंकी देखा-देखी करना अच्छा नहीं है। अब मैं अपने बर्तावके सम्बन्धमें कुछ निवेदन कर रहा हूँ, उसे सुनिये। जो मुझे मारता है तथा जो मेरी प्रशंसा करता है, वे दोनों ही मेरे लिये बराबर हैं, मैं उनमेंसे किसीको प्रिय और अप्रिय नहीं मानता। बुद्धिमान् पुरुष ऐसे ही धर्मको प्रशंसा करते हैं। यही युक्तिसंगत है। यति भी इसीका सेवन करते हैं तथा धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचारकर सदा इसी धर्मका अनुष्ठान किया करते हैं।

जाजलिको तुलाधार तथा पक्षियोंका उपदेश

जाजलिने कहा—वणिक महोदय ! तुम हाथमें तराजू लेकर सौदा तोलते हुए जिस धर्मका उपदेश करते हो, उससे तो स्वर्गका दरवाजा ही बंद हो जायगा तथा प्राणियोंकी जीविका ही रुक जायगी। तुम्हें मालूम होना चाहिये कि अन्न और पशुओंसे ही मनुष्योंका जीवन-निर्वाह होता है। पशुओंद्वारा उत्पन्न किये हुए अन्नसे ही यज्ञ-यागादि कर्म सम्पन्न होते हैं। तुम्हारी बातें तो नास्तिकोंकी-सी हो रही हैं। पशुओंके कष्टका खयाल करके यदि कृषि आदि वृत्तियोंका ही त्याग कर दिया जाय, तब तो संसारका जीवन ही समाप्त हो जायगा।

तुलाधारने कहा—ग्रहण ! दूसरोंको कष्ट दिये बिना जिस प्रकार जीवन-निर्वाह करना चाहिये, वह उपाय मैं बता रहा हूँ, मुनिये। आप मुझे नास्तिक बता रहे हैं, पर मैं नास्तिक नहीं हूँ और न यज्ञकी निन्दा ही करता हूँ। यज्ञ उत्तम कर्म है; किन्तु उसके स्वरूपको ठीक-ठीक जाननेवाले लोग दुर्लभ हैं। ब्राह्मणोंके लिये जिस यज्ञका विधान है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ तथा उस यज्ञको जाननेवाले ब्राह्मणोंके चरणोंमें भी शीघ्र नुकाता हूँ। खेद है कि इस समय ब्राह्मणलोग अपने यज्ञका परित्याग करके क्षत्रियोचित यज्ञोंके अनुष्ठानमें प्रवृत्त हो रहे हैं। धन कमानेके प्रयत्नमें सगे हुए बहुत-से लोभी और नास्तिक पुरुषोंने वैदिक वचनोंका तात्पर्य न समझकर सत्यसे प्रतीत होनेवाले मिथ्या यज्ञोंका प्रचार कर दिया है। गुण कर्मके द्वारा जिस हविष्यका संग्रह किया जाता है, उसीके होमसे देवता प्रसन्न होती हैं। शास्त्रके कथनानुसार नमस्कार, स्वाध्याय और अन्नरूप

हविष्यके द्वारा देवताओंकी पूजा हो सकती है। जो लोग कामनाके बशीमूत होकर यज्ञ करते, तालाब खुदवाते या बगीचे लगवाते हैं, उनसे उन्हींकी तरह कामना रखनेवाली संतान उत्पन्न होती है। लोभीकी संतान लोभी और समदर्शीकी संतान समान दृष्टि रखनेवाली होती है। यज्ञमान और ऋत्विक् स्वयं जैसे होते हैं, उनकी प्रजा भी वसी ही होती है। जिस प्रकार आकाशसे निर्मल जलकी वर्षा होती है, उसी प्रकार शुद्धभावसे किये हुए यज्ञसे योग्य प्रजाकी उत्पत्ति होती है। विप्रवर ! अग्निमें डाली हुई आहुति सूर्यमण्डलमें पहुँचती है, सूर्यसे जलकी वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न उपजता है और अन्नसे सम्पूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है। पहलेके लोग कर्तव्य-पालनकी दृष्टिसे यज्ञ-यागादिमें प्रवृत्त होते थे, मनमें कोई कामना नहीं रखते थे; इसीलिये उनकी सम्पूर्ण कामनाएँ स्वतः पूर्ण हो जाती थीं। पृथ्वीसे बिना जोते ही काफी अन्न पैदा होता तथा जगत्की भलाईके लिये उनके शुभ संकल्पसे ही वृक्ष और लताओंमें फल-फूल लगते थे। वे यज्ञ तो करते थे, पर अपनेको उसका कोई फल मिलता है, इसका विचार भी नहीं करते थे। जो मनुष्य यज्ञसे कोई फल मिलेगा या नहीं? ऐसा संदेह लेकर यज्ञमें प्रवृत्त होते हैं, वे धन चाहनेवाले लोभी, धूर्त और दुष्ट हैं। ऐसे लोगोंको अपने अशुभ कर्मके कारण पापियोंको मिलनेवाले लोकोंमें जाना पड़ता है। जो प्रमाणमूल वेदको अपने कुतर्कसे अप्रामाणिक बतानेका दुःसाहस करता है, वह मूर्ख और पापात्मा है तथा उसे भी पापियोंके लोकोंकी ही प्राप्ति होती है। किन्तु जो करने

योग्य कर्मोंको नित्यकर्म समझकर करता है और कभी उसका पालन न होनेपर भयभीत हो जाता है, जिसको दृष्टिमें (ऋत्विक्, हविष्य, मन्त्र और अग्नि आदि) सब कुछ ब्रह्म ही है तथा जो कभी अपनेमें कर्तापनका अभिमान नहीं करता, वही सच्चा ब्राह्मण है। प्राचीन कालके ब्राह्मण सत्यवादी, इन्द्रियसंयमी और परम पुरुषार्थकी प्राप्तिके लिये उत्सुक रहनेवाले थे। उनकी धन पानेकी प्यास बुझ गयी थी। वे त्यागी, ईर्ष्यारहित, देह और आत्माके तत्त्वकी जाननेवाले, आत्मयज्ञमें स्थित तथा प्रणवके जपमें तत्पर रहनेवाले थे, स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरोंको भी संतोष देते थे।

ब्रह्म सर्वात्मिक है, सम्पूर्ण देवता उसीके स्वरूप हैं। यह ब्रह्मदेवताके भीतर स्थित होता है; इसलिये उसके तृप्त होनेपर सम्पूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। जैसे सब प्रकारके रसोंसे तृप्त मनुष्यको कुछ भी नहीं माता, उसी प्रकार जो ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण है, उसे सदा तृप्ति बनी रहती है, वह विषय-सुखोंको प्राप्त करना नहीं चाहता। जिनका धर्म ही आधार है, जो धर्ममें ही सुख मानते हैं तथा जिन्होंने सम्पूर्ण कर्तव्य और अकर्तव्यका निश्चय कर लिया है, वे ज्ञानी पुरुष ही परमात्माके स्वरूपको ठीक-ठीक जान पाते हैं। भवसागरसे पार उतरनेकी इच्छा रखनेवाले ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न महात्मा लोग अद्यन्त पवित्र और पुण्यात्माओंसे सिवाय ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं, जहाँ जाकर किसीको शोक नहीं करना पड़ता, जहाँसि गिरनेका डर नहीं रहता तथा जहाँ किसी तरहकी पीड़ा या व्यथा नहीं होती। वे सार्वत्रिक महापुरुष स्वर्ग नहीं चाहते, यश और धनके लिये यज्ञ नहीं करते तथा सत्पुरुषोंके मार्गका अवलम्बन करते हैं। उनके द्वारा अहिंसाप्रधान यज्ञोंका अनुष्ठान होता है। वे वनस्पति, अन्न और फल-मूलको ही हविष्य मानते हैं। फलकी इच्छा रखनेवाले लोभी ऋत्विज् उनका यज्ञ नहीं करते। ज्ञानी ब्राह्मण अपनेको ही यज्ञका उपकरण मानकर मानसिक यज्ञका अनुष्ठान करते हैं। जिन्होंने कर्मका त्याग कर दिया है, वे भी लोक-संग्रहके लिये मानसिक यज्ञमें प्रवृत्त रहते हैं। लोभी ऋत्विज् तो ऐसे लोगोंका ही यज्ञ करते हैं, जो मोक्षकी इच्छा नहीं रखते। साधु पुरुष अपने धर्मका आचरण करते हुए ही प्रजाको स्वर्गकी प्राप्तिका उपाय बताते हैं। सत्पुरुषोंके बतावके अनुसार मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान भाव ही रखती है। सिद्धसंकल्प ज्ञानी महात्माओंकी इच्छा होते ही बेल स्वयं गाड़ोंमें जूतकर उनकी सवारी ढोने लगते हैं तथा दूध देनेवाली गौएँ सब प्रकारके मनोरथ सिद्ध करती हुई दूध प्रदान करती हैं। जिसके मनमें कोई कामना नहीं है, जो किसी फलकी इच्छासे कर्मोंका आरम्भ

नहीं करता, नमस्कार और स्तुतिसे अलग रहता है, जिसके कर्मबन्धन क्षीण हो गये हैं, उसी पुरुषको देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं।

जाजलिने पूछा—वैश्यप्रवर ; मैंने आत्मयात्री मुनियोंके मानसिक यज्ञका तत्त्व कभी नहीं सुना, सम्भवतः वह समझनेमें कठिन भी है; क्योंकि पूर्वकालीन महापुरुषोंने उसके ऊपर विशेष विचार नहीं किया है तथा अर्वाचीन महापुरुष भी उसका प्रचार नहीं करते हैं। ऐसे स्थितिमें दुर्बोध होनेके कारण अबिवेकी मनुष्य तो मानसिक यज्ञका अनुष्ठान कर नहीं सकते, फिर उनकी क्या गति होगी ? वे किस कर्मसे सुख पा सकते हैं ? यही बताओ। मुझे तुम्हारी बातोंपर बड़ी थढ़ा हो रही है।

तुलाधारने कहा—ब्रह्मन् ! जिन दम्भो पुरुषोंके यज्ञ अथवा आदि बौद्धिक कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहते, उन्हें न तो मानसिक यज्ञ करनेका अधिकार है न क्रियाहय यज्ञ। थढ़ालु पुरुष तो धो, दूध, दही और पूर्णहुतिते ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं। थढ़ालुओंमें जो अतमर्ष हैं, उनका यज्ञ गाय अपनी पूँछके बालोंसे, साँसे और पंरोंकी धूलिते ही पूर्ण कर देती है *। जो इस प्रकार केवल धो, दूध आदिका उपयोग करके अहिंसाप्रधान यज्ञका आरम्भ करता है, वह यज्ञमान पत्नीके अभावमें मानसिक भावनाद्वारा ही उसकी कल्पना कर लेता है अर्थात् थढ़ाको ही पत्नी मान लेता है और इष्टदेवताका यजन करके यज्ञस्वरूप भगवान् विष्णुको प्राप्त हो जाता है। विप्रवर ! यह आत्मा ही प्रधान तीर्थ है। आप तीर्थसेवनके लिये देश-देशमें भ्रम भटकिये। जो मेरे बताये हुए अहिंसाप्रधान धर्मोंका आचरण करता है, उसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है। ब्रह्मन् ! मैंने धर्मका जो स्वरूप सामने रखा है, उसका पालन सज्जन करते हैं या दुर्जन ? इस बातकी जाँच कर लीजिये, तब आपकी इसकी पर्यायताका ज्ञान हो जायगा। देखिये, ये जो बहुत-से पक्षी आकाशमें उड़ रहे हैं, सब आपके मस्तकसे उत्पन्न हुए हैं। इस समय अपने हाथ-पंर समेटकर धौंसलोंमें प्रवेश करनेके लिये भौड़े जाते हैं। आपने इन्हें पुत्रकी भाँति पाला है और ये भी आपका पिताके समान आदर करते हैं। निःसंदेह आप इनके पिताके ही तुल्य हैं। अतः इन्हें बुलाइये (और इन्होंने मूलसे अहिंसा-प्रधान धर्मको महिमा सुनिये)।

मोक्षमयी कहते हैं—तुलाधारकी बात सुनकर जाजलिने उन पक्षियोंको बुलाया, तब वे आकर धर्मका उपदेश करनेके

* गायकी पूँछसे पितरोंका तर्पण और उसके सीपके जलसे अभिषेक होता है तथा उसके चरणोंकी धूलि पड़नेसे सब पापोंका नाश हो जाता है।

लिये मनुष्यकी भांति स्पष्ट वाणीमें बोलने लगे—'ब्रह्मन् ! हिंसा और उसकी भावनासे रहित होकर जो कर्म किये जाते हैं, वे इस लोक और परलोकमें भी कल्याणकारी होते हैं । हिंसा श्रद्धाका नाश करती है और नष्ट हुई श्रद्धा हिंसक मनुष्यका सर्वनाश कर डालती है । जो लाभ-हानिमें समान भाव रखनेवाले, श्रद्धालु, संयमी और शान्तचित्त हैं तथा कर्तव्य समझकर यज्ञका अनुष्ठान करते हैं; उन्हींका यज्ञ सफल होता है । श्रद्धा सबकी रक्षा करती है, उसके प्रभावसे विशुद्ध जन्म प्राप्त होता है । ध्यान और जपसे भी श्रद्धाका महत्त्व अधिक है । यदि कर्ममें वाणीके दोषसे मन्त्रका ठीक उच्चारण न हो सके और मनकी चञ्चलताके कारण इष्टदेवताके ध्यानमें विक्षेप आ जाय तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह उस दोषको दूर कर देती है । किंतु श्रद्धाके न रहनेपर केवल मन्त्रोच्चारण और ध्यानसे ही कर्मकी पूर्ति नहीं होती—श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है । इस विषयमें प्राचीन वृत्तान्तोंको जाननेवाले लोग ब्रह्माजीकी कही हुई गाथा सुनाया करते हैं, जो इस प्रकार है—पहले देवता लोग श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रताहीन श्रद्धालुके द्रव्यको एक-सा ही समझते थे । इसी प्रकार वे कृपण वेदवेत्ता और महादानी सूदखोरके अन्नमें भी कोई अन्तर नहीं मानते थे । एक बार यज्ञमें उनके इस वर्तावको देखकर प्रजापति (ब्रह्माजी) ने कहा—'देवताओ ! तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है । वास्तवमें उदारका अन्न उसकी श्रद्धाके कारण पवित्र होता है और कंजूसका अश्रद्धासे दूषित । (अतः श्रद्धाहीन

पवित्रकी अपेक्षा पवित्रताहीन श्रद्धालुका ही अन्न ग्रहण करने योग्य है । इसी प्रकार वेदवेत्ता और सूदखोरमेंसे वेदवेत्ताका ही अन्न श्रद्धापूत एवं ग्राह्य है) । सारांश यह कि उदारका ही अन्न भोजन करना चाहिये, कृपण एवं सूदखोरका नहीं । जिसमें श्रद्धा नहीं वह देवयज्ञका अधिकारी नहीं है । धर्मज्ञोंने उसीके अन्नको अग्राह्य बतलाया है । अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पापसे मुक्त करनेवाली है । जैसे साँप अपनी पुरानी कँचुलको छोड़ता है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पापका परित्याग कर देता है । श्रद्धा होनेके साथ-ही-साथ पापोंसे निवृत्त हो जाना सब पवित्रताओंसे बढ़कर है । जिसके रागादि दोष दूर हो गये हैं, वह श्रद्धालु पुरुष ही वास्तवमें पवित्र है । उसे तप और आचार-व्यवहारसे क्या प्रयोजन है ? यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिये जो जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं भी वैसा ही है ।' धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले सत्पुरुषोंने इसी प्रकार धर्मकी व्याख्या की है । हमलोगोंने धर्मदर्शन नामक मुनिसे पूछकर उस धर्मका ज्ञान प्राप्त किया है । विप्रवर ! आप इसपर विश्वास कीजिये । इसके अनुकूल आचरण करनेसे आपको परमात्माकी प्राप्ति होगी । श्रद्धालु मनुष्य साक्षात् धर्मका स्वरूप है । जो श्रद्धापूर्वक अपने धर्मपर स्थित है, उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिये ।

भीष्मजी कहते हैं—तदनन्तर, तुलाधार और जाजलि थोड़े ही समयमें दिव्यलोकको प्राप्त हुए और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे । तुलाधारने सनातन धर्मका उपदेश किया था और उसे सुनकर जाजलि मुनिकी बड़ी शान्ति मिली थी ।

राजा विचख्नुके द्वारा अहिंसाधर्मकी प्रशंसा तथा चिरकारीका उपाख्यान

भीष्मजी कहते हैं—पृथिवी ! राजा विचख्नुने प्राणियोंपर दया करनेके विषयमें जो कुछ कहा है, वह प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ । एक समय किसी यज्ञशालामें राजाने देखा कि बलकी गर्दन कटी हुई है और यहाँ बहुत-सी गौएँ आर्तनाद कर रही हैं । हिंसाकी यह क्रूर प्रवृत्ति देखकर राजासे नहीं रहा गया; वे अपना निश्चित सिद्धान्त इस प्रकार सुनाने लगे 'ओह ! बंचारी गौएँ बड़ा फट पा रही हैं, इनकी हत्या न करो । संसारकी समस्त गौओंका कल्याण हो । जो धर्मकी मर्यादासे भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, जिन्हें आत्मतत्त्वके विषयमें भारी संदेह है तथा जो छिपे हुए नास्तिक हैं, उन्हीं लोगोंने हिंसाका समर्थन किया है । मनुष्य अपनी ही इच्छासे यज्ञवेदीपर पशुओंका बलिदान करते हैं । घर्मात्मा मनुने तो सब कर्मोंमें अहिंसाकी

ही प्रशंसा की है; इसलिये विज्ञ पुरुषको वैदिक प्रमाणसे धर्मके सूक्ष्म स्वरूपका निर्णय करके उसका पालन करना चाहिये । किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना ही सब धर्मोंसे श्रेष्ठ माना गया है । मिताहारी होकर कठोर नियमोंका पालन करे, वेदकी फल-श्रुतियोंमें आसक्त न होकर उनका त्याग करे, आचारके नामपर अनाचारमें प्रवृत्त न हो । कृपण मनुष्य ही फलकी इच्छा करते हैं । यज्ञमें मद्य, मांस और मीन आदिका उपयोग धूर्तोंका चलाया हुआ है । वेदोंमें इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है । लोग मान, मोह और लोभके वशीमूल होकर जिह्वाकी लोलपताके कारण निपिद्ध वस्तुओंको खाते-पीते हैं । श्रोत्रिय ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यज्ञोंमें भगवान् विष्णुका ही आविर्भाव मानते हैं और पुष्प तथा खीर आदिसे उनकी पूजा करते हैं । वेदोंमें

जो यज्ञसम्बन्धी वृक्ष बताने गये हैं, उन्हींका हवनमें उपयोग होता है। शुद्ध चित्तवाले सत्त्वगुणो पुत्र्य अपनी विमूढ़ भावनासे प्रोक्षण आदिके द्वारा संस्कार करके जित हविष्यको तैयार करते हैं, वही देवताओंको अर्पण करनेके योग्य होता है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! आप मेरे परम गुरु हैं। कृपया बतलाइये, यदि कभी गुरुजनके आग्रहसे कोई कठोर कार्य करनेका अवसर उपस्थित हो जाय, उस समय उसे शीघ्र कर डालना चाहिये या विलम्ब करके उस कार्यको परीक्षा करनी चाहिये ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास है, जो आङ्गिरसकुलमें उत्पन्न हुए चिरकारीके वृत्तान्तसे सम्बन्ध रखता है। कहते हैं, महर्षि गौतमके एक चिरकारी नामधारा पुत्र था, जो बड़ा बुद्धिमान् था। वह चिरकालतक जागता और सोता था। किसी कार्यपर बहुत देरतक विचार करता था और चिरविलम्बके बाद ही काम पूरा करता था, इसलिये सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। जो दूरतककी बात नहीं सोच सकते, ऐसे मन्दबुद्धि मनुष्य उसे आलसी और नासमझ कहते थे। एक दिन गौतमने अपनी स्त्रीका व्यभिचार देखकर बड़ा कोप किया और अपने दूसरे पुत्रोंको आज्ञा न देकर चिरकारोसे कहा—‘बेटा ! तू अपनी इस पापिनी माताको मार डाल।’ बिना विचारे ही यह आज्ञा देकर महर्षि गौतम यनमें चले गये और चिरकारी ‘हाँ’ करके भी अपने स्वभावके अनुसार बहुत देरतक उसपर विचार करता रहा। उसने सोचा—‘क्या उपाय कर्हूँ, जिससे पिताकी आज्ञाका पालन भी हो जाय और माताका वध भी न हो। धर्मके बहाने यह मूत्रपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। भला अन्य असाधु पुरुषोंकी भाँति मैं भी इसमें डूबनेका साहस कैसे कर्हूँ ? पिताकी आज्ञाका पालन परम धर्म है, साथ ही माताकी रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है। पुत्र तो पिता और माता दोनोंके अधीन होता है। अतः क्या कर्हूँ, जिससे मेरा ही धर्म मुझे कष्टमें न डाले। पिता स्वयं अपने शील, सदाचार, गौरव और कुलकी रक्षाके लिये स्त्रीके गर्भमें आकर पुत्ररूपमें उत्पन्न होता है। अतः मुझे माता और पिता दोनोंने ही जन्म दिया है; फिर मैं अपनेको दोनोंका ही पुत्र क्यों न समझूँ ? जातकर्म तथा उपकर्मके समय पिताने जो मुझे पत्यरके समान सुबुद्ध और फरसेके समान शत्रुसंहारक होनेका आशीर्वाद दिया तथा अपना आत्मा कहकर अनुगृहीत

किया है, यह उनके गौरवका निरचय करनेमें पर्याप्त प्रमाण है। पिता भरण-पोषण और अध्यापन करनेके कारण पुत्रका प्रधान गुरु है। वह जो कुछ भी आज्ञा दे, उसे धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिये। यही वेदकी भी निर्गन्त आज्ञा है। पुत्र पिताके स्नेहका पात्र है, किंतु पिता पुत्रका सर्व्व है। एकमात्र पिता ही पुत्रको शरीर आदि सब कुछ देता है; इसलिये कोई सोच-विचार किये बिना ही पिताकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। जो पुत्र पिताकी आज्ञा मानता है, उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। गर्माधान और सोमन्तोत्प्रेयन संस्कारके द्वारा पिता ही पुत्रको उत्पन्न करता है। यही अन्न-यज्ञ देता, पढ़ाता-लिखाता और समस्त लोक-व्यवहारोंका ज्ञान कराता है। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ा तप है। पिताके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिता जो कुछ भी कहता है, वह पुत्रके लिये आशीर्वाद है। यदि पिता प्रसन्न होकर पुत्रका अभिनन्दन करे तो वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। वृक्ष अपने फूल और फलोंको छोड़ देते हैं; किंतु पिता बड़े-से-बड़े संकटमें भी स्नेहके कारण पुत्रको नहीं छोड़ता। अतः पुत्रके लिये पिताका स्थान बहुत ऊँचा है। अस्तु, पिताके गौरवपर तो मैंने विचार कर लिया, अब माताके विषयमें सोचता हूँ।

जैसे अरणी अग्निकी उत्पत्तिक कारण है, उसी प्रकार मूत्र जो यह पाञ्चभौतिक मनुष्य-शरीर मिला है, इसको जन्म देनेवाली मेरी माता ही है। संसारके समस्त दुखी जीवोंको मातासे ही सान्त्वना मिलती है। जबतक माता जीवित रहती है, मनुष्य अपनेको सनाय समझता है। उसके मरनेपर वह अनाय-सा हो जाता है। पुत्र और पीतोंसे मुक्त सो वर्षका बूढ़ा ही वर्षों न हो, यदि उसकी माता जीवित हो तो वह उसके पास दो वर्षके बालकका-सा ही आनन्द उठाता है। बेटा समर्थ हो या असमर्थ, दृष्ट-पुष्ट हो या दुर्बल, माता हमेशा उसकी रक्षामें रहती है। माताके समान विधिपूर्वक पालन-पोषण करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। जब मातासे बिछोह हो जाता है, उस समय मनुष्य अपनेको बूढ़ा समझने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है, मानो उसके लिये सारा हान्य सूना हो गया। माताकी छत्र-छायामें जो सुख है, वह नहीं है। माताके सुल्य दूसरा सहारा नहीं है। दूसरे लिये माँके समान रक्षक और प्रिय कोई नहीं है। वह अपने धारण करनेके कारण ‘घात्री’ और ‘जननी’ कहलानी है। दूध निरंतर बहने के कारण बड़ानी है, इसलिये उसे ‘अम्ब’ कहते हैं।

१. अदमा भव। २. परदुर्भव। ३. आत्मा वै पुत्रनामासि।

होनेके कारण यह 'वीरसू' और शुश्रूषा करनेसे 'शुश्रू' नाम धारण करती है। ऐसी माताका भला कौन पुत्र वध करेगा? 'पुत्रका क्या गोत्र है और वह किसके वीर्यसे उत्पन्न हुआ है' इस बातको माता ही जानती है। बच्चेका जालन-पालन करनेमें माताको विशेष सुख मिलता है, वह उसपर पितासे भी अधिक रनेह रगती है।

पुरुष अपनी स्त्रीका भरण-पोषण करनेसे भर्ता और पालन करनेके कारण पति कहलाता है। इन दोनों गुणोंके न रहनेपर वह भर्ता या पति कहलाने योग्य नहीं होता (इसलिये मेरे पिता भी अपनी स्त्रीको मार डालनेकी आज्ञा देनेके कारण उसके भर्ता या पतिके कर्तव्यसे गिर रहे हैं)। वास्तवमें स्त्रीका कोई अपराध नहीं होता। व्यक्ति-चारका महान् पाप पुरुष ही करता है, इसलिये सारा अपराध उसीका है। पति नारीका सबसे बड़ा देवता है। वह उसकी सेवासे कभी मुंह नहीं मोड़ती। इन्द्र पिताजीके समान रूप धारण कर मेरी माताके पास आया था। अतः उसने उसे अपना ही पति समझकर आत्मसमर्पण किया है। ऐसे अवसरों पर स्त्रियोंका नहीं पुरुषोंका ही दोष मानना चाहिये; क्योंकि सारे अपराधकी जड़ वे ही होते हैं। स्त्रियाँ तो अवला होनेके कारण पुरुषोंके अधीन होती हैं। किसी भी अपराधमें उनका अपना हाथ नहीं होता, अतः उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिये। माताका गौरव पितासे भी बढ़कर है। एक तो यह नारी होनेके कारण ही अवध्य है, दूसरे मेरी पूजनीया माता है। नारामक पशु भी स्त्री और माताको अवध्य मानते हैं; फिर मैं समझदार होकर भी उसका वध कैसे करूँ?

विलम्ब करनेका स्वभाव होनेके कारण चिरकारी इस प्रकार बहुत देरतक सोचता-विचारता रहा, इतनेमें उसके पिता बनते लौटे। उस समय उन्हें बड़ा परचात्ताप ही रहा था। वे शोकके आँसू बहाते हुए मन-ही-मन इस प्रकार कह रहे थे—'ओह! विभूवनका स्वामी इन्द्र ब्राह्मणका वेध बनाकर मेरे आश्रमपर आया था। मैंने भीठी ब्रातोंसे उसे सान्त्वना दी और स्वागतके पश्चात् अर्घ्य-पाद्य आदि निवेदन करके उसका विधिवत् पूजन किया। इस प्रकार जब मैंने ही उसे अपने घरमें आश्रय दिया और उसने अपनी विषय-लोलुपताके कारण ऐसा निन्द्य कर्म कर डाला, तो इसमें बेचारी स्त्रीका क्या अपराध है? हाय! ईष्यिके कारण मेरा चित्त चञ्चल हो गया था, इसीलिये मैं पापके समुद्रमें डूब गया। यह पतिव्रता मेरे दुःखमें हाथ बँटानेवाली थी और भार्या होनेके कारण मुझसे भरण-पोषण पानेकी अधिकारिणी थी; किंतु मैंने उसकी हत्या करा डाली। अब कौन इस पापसे मेरा

उद्धार करेगा? मैंने उदारबुद्धि चिरकारीको उसकी माताका वध करनेकी आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कार्यमें विलम्ब करके अपने नामको सार्थक किया हो तो वही मुझे स्त्री-हत्याके पातकसे बचा सकता है। बेटा चिरकारिक! तेरा फल्याण हो, यदि आज तूने इस कार्यमें देरी की हो, तभी तेरा चिरकारिक नाम सफल हो सकता है। आज विलम्ब करके वास्तवमें चिरकारी बन और अपनी माता तथा मेरी तपस्याकी रक्षा कर, साथ ही मुझे और अपने आपको भी पापसे बचा ले। तेरी माता चिरकालसे तेरे जन्मकी आशा लगाये बँठी थी। उसने बहुत दिनोंतक तुझे अपने गर्भमें धारण किया है; अतः आज उसकी रक्षा करके अपनी चिरकारिताको सफल बना।'

इस प्रकार दुखी होकर सोचते-विचारते हुए महर्षि गौतम जब आश्रममें आये तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा दिखायी दिया। वह पिताको देखकर बहुत दुखी हुआ और हृदयदार फँककर उन्हें प्रसन्न करनेके लिये चरणोंपर गिर पड़ा।



पुत्रको पैरोंपर गिरा देख और पत्नीको अत्यन्त लज्जित जानकर महर्षिको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने यह सोचकर कि चिरकारी भयके मारे शस्त्र-ग्रहणकी चपलताको छिपा रहा है, उसको उठाकर गलेसे लगा लिया और देरतक वे उसका मस्तक सूँघते रहे; फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और

उपदेश देते हुए बोले—'वत्स ! तू सदा चिरजीवी रह, तेरा कल्याण हो; यों ही चिरकालतक सोच-विचारकर काम किया कर। आज तेरी चिरकारिताके ही कारण मैं बहुत समयतक दुःख भोगनेसे बच गया। बेटा ! अधिक कालतक सोच-समझके ही किसीसे मित्रता जोड़नी चाहिये और जिसे मित्र बना लिया, उसका सहसा परित्याग भी नहीं करना चाहिये। बहुत दिनोतक सोच-समझ करके स्थापित की हुई संबंधी ही अधिक कालतक टिकाऊ होती है। राग, दुर्ष, अभिमान, द्रोह, पाप और किसीका अप्रिय करनेमें विलम्ब करके जो धुब सोच-विचार लेता है; वह प्रशंसनीय माना जाता है। बन्धु, सुहृद, भूय और स्त्रियोंके छिपे हुए अपराधोंका निर्णय करनेमें भी जल्दीबाजी करना अच्छा नहीं है।'

भीष्मजी कहते हैं—मुधिष्ठिर ! इस प्रकार गौतम अपने पुत्रके विलम्बपूर्वक कार्य करनेके कारण बहुत प्रसन्न हुए थे। ऐसे ही प्रत्येक कार्यमें देरतक विचार करके किसी निरचयपर पहुँचनेवालेको परचात्ताप नहीं करना पड़ता। जो विद्वानों और शिष्ट पुरुषोंकी सेवामें अधिक समयतक रहकर सदा अपने मनको यशमें किये रहता है, वह चिरकालतक सम्मानका भागी होता है। धर्मोपदेश करनेवाले पुरपसे यदि कोई प्रश्न करे तो उसे देरतक विचार करके ही उसका उत्तर देना चाहिये। महातपस्वी महर्षि गौतम अपने चिरकारी पुत्रके साथ बहुत वर्षोंतक उस आश्रममें रहे; उसके बाद देहत्यागके अनन्तर वे पुत्रसहित स्वर्ग सिधारे।

अहिंसापूर्वक राज्यशासन करनेके विषयमें धुमत्सेन और सत्यवान्का संवाद

मुधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! राजा किसीकी हिंसा किये बिना प्रजाकी रक्षा कैसे कर सकता है ?

भीष्मजीने कहा—मुधिष्ठिर ! इस विषयमें धुमत्सेन और सत्यवान्के संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। सुना है, एक दिन सत्यवान्ने देखा कि पिताकी आज्ञासे बहुतसे अपराधी फाँसीपर चढ़ानेके लिये ले जाये जा रहे हैं; उस समय उन्होंने पिताके पास जाकर कहा—'पिताजी ! यह सत्य है कि कभी ऊपरसे अधर्म-सा दिखायी देनेवाला कार्य धर्म ही जाता है और धर्म-सा प्रतीत होनेवाला कार्य भी अधर्मका रूप धारण कर लेता है। तयापि किसीका प्राण लेना तो किसी तरह धर्म नहीं हो सकता।'

धुमत्सेन बोले—बेटा ! यदि अपराधीका घब करना भी अधर्म हो तो धर्म क्या हो सकता है ? अगर डाकू मारे न जायें तो धर्म-अधर्म सब भिन्नकर एक ही जायें। कतियुगमें तो लोग दूसरोंकी वस्तुको सोचें हड़प लेना चाहते हैं। 'यह वस्तु मेरी है, उसकी नहीं है' ऐसा कहने लगते हैं। ऐसी दशांमें दण्डके बिना लोकयात्राका निर्याह कैसे हो सकता है ? यदि तुम दण्डके बिना भी निर्वाहका कोई उपाय जानते हो तो बताओ।

सत्यवान्ने कहा—पिताजी ! क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—इन तीनों वर्णोंको ब्राह्मणोंके अधीन कर देना चाहिये। जब चारों वर्णोंके लोग धर्मके बन्धनमें बंधकर उसका पालन करने लगेंगे तो उनकी देखा-देखी दूसरे मनुष्य—भूत-भागध आदि भी धर्मका आचरण करेंगे। अगर कोई ब्राह्मणकी आज्ञा न माने तो ब्राह्मणकी राजाके पास जाकर कहना

चाहिये कि 'अमुक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता।' फिर राजा उस व्यक्तिको दण्ड दे। दण्ड-विधान ऐसा होना चाहिये, जिसमें प्राण जानेका मय न हो। नीति-शास्त्रोंकी आज्ञाचना और अपराधोंके कार्यपर भलीभाँति विचार किये बिना दण्ड देना अच्छा नहीं है। राजा जब डाकुओंका घब करता है तो उनके साथ बहुतसे निरपराध मनुष्य—डाकुओंके माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि भी कालके प्राप्त बन जाते हैं; अतः राजाको बहुत सोच-विचारकर दण्डका निरचय करना चाहिये। दुष्ट पुरुष भी कभी साधु-सङ्गसे मुधरकर मुश्रीन बन जाता है तथा बहुतसे दुष्ट पुरुषोंकी भी संतानें अच्छी निराल आती हैं; इसलिये दुष्टोंको प्राण-दण्ड देकर उनका मूलोच्छेद नहीं करना चाहिये। उनको जड़ उखाड़ना सनातन-धर्म नहीं है। हलका-सा शारीरिक दण्ड देना उचित है, जिससे उनके पापोंका प्रायश्चित्त हो जाय। अथवा सर्वस्य छीन लेनेका मय दिखाया जाय, कंड कर लिया जाय या नाक-कान आदि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया जाय। प्राण-दण्ड देकर उनके कुटुम्बियोंको क्लेश पहुँचाना तो कदापि उचित नहीं है। इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मणकी शरण जा चुके हों, तो भी राजा उन्हें दण्ड न दे। प्रजापतिकी आज्ञा है कि यदि दुष्ट पुरुष ब्राह्मणकी शरण जाकर यह प्रतिज्ञा करें कि 'आजते हम कोई पाप या अपराध नहीं करेंगे' तो उन्हें छोड़ देना चाहिये। किन्तु धारंवार अपराध करनेपर उसे पहलेंहीं भाँति दण्ड दिये बिना छोड़ना ठीक नहीं है। माप मुद्राकर दण्ड और मृगचर्म धारण करनेवाले संन्यासी भी यदि पाप करें तो उन्हें भी दण्ड देना चाहिये।

द्युमत्सेनने कहा—बेटा ! जिस तरहसे हो सके प्रजाको धर्मकी मर्यादाके भीतर रखना चाहिये । यही राजाका धर्म है । लुटेरोंका वध न किया जाय तो वे सारी प्रजाको कष्ट पहुँचाते हैं । पहलेके लोगोंको राहपर लाना सुगम था; क्योंकि उनका स्वभाव कोमल होता था, सत्यमें उनकी विशेष रुचि थी और द्रोह तथा क्रोधकी मात्रा उनमें बहुत कम थी । उस समय अपराधीको धिक्कार देना ही भारी दण्ड समझा जाता था । फिर धीरे-धीरे लोगोंमें अपराधकी प्रवृत्ति बढ़ने लगी, इससे वाग्दण्डका प्रचार हुआ—अपराधीको कटुवचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा । उसके बाद गुरमाना वसूल करनेका दण्ड जारी किया गया और अब तो वधका दण्ड भी प्रचलित है । फिर भी लोगोंको मर्यादाके भीतर रखना कठिन हो गया है । लुटेरे देवता, पितर, गन्धर्व और मनुष्य—किसीके नहीं होते । वे तो मरघटमें जाकर मुर्दोंके भी जेवर उतार लाते हैं । भला उनको कौन राहपर ला सकता है ? उनके ऊपर विश्वास करनेवालोंको तो मूर्ख ही समझना चाहिये ।

सत्यवान्ने कहा—पिताजी ! यदि आप लुटेरोंका वध न करके उन्हें सत्पुरुष बनानेमें असमर्थ हैं तो और किसी उत्तम उपायसे उनकी दस्यु-वृत्तिका अन्त कीजिये । कितने ही राजा लोक-कल्याणके लिये कठिन तपस्या करते हैं; उन्हें देखकर उस राज्यमें रहनेवाले दुष्ट लज्जित होते हैं और वे अपने आचरणको सुधारकर राजाके ही समान सदाचारी बन जाते हैं । बहुत-सी प्रजा केवल भय दिखानेसे सन्मार्गपर आ जाती है; अतः श्रेष्ठ भूपाल अपने सद्ब्यवहारसे ही प्रजापर अधिक कालतक शासन करते हैं । वे अपराधियोंके प्राण नहीं लेते । यदि राजा उत्तम आचरण करता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करते हैं । बड़ोंके आचरणों-

का अनुवर्तन करना मनुष्योंका स्वभाव होता है । जो राजा स्वयं विषय भोगनेके लिये इन्द्रियोंका गुलाम हो रहा है, अपने मनको काबूमें नहीं रख पाता, वह यदि दूसरोंको सदाचारका उपदेश देने लगे तो लोग उसकी हँसी उड़ाते हैं । अगर कोई मनुष्य दमन या मोहके कारण राजाके साथ कोई अनुचित व्यवहार करे तो प्रत्येक उपायसे उसका दमन करना चाहिये । ऐसा करनेसे वह अपनी दुरी आदत छोड़ देता है । जो पापकी प्रवृत्तिको रोकना चाहता हो, उस राजाको पहले अपना मन वशमें करना चाहिये । इसके बाद यदि अपने सगे बन्धु-बान्धवभी अपराध करें तो उन्हें भी भारी दण्ड देना चाहिये । जहाँ पाप करनेवाले नीचको महान् संकटका सामना नहीं करना पड़ता, वहाँ पाप बढ़ता है और धर्मका ह्रास होता है ।

पिताजी ! एक दयालु ब्राह्मणने मुझे यह उपदेश देते हुए कहा था कि 'तात सत्यवान् ! मेरे पूर्वजोंने कृपा करके मुझे ऐसी शिक्षा दी थी; इसलिये राजाको सत्ययुगमें जब कि धर्म अपने चारों चरणोंसे मौजूद रहता है, पूर्वोक्त अहिंसामय दण्डका ही विधान करना चाहिये । त्रेतायुग आनेपर धर्मका प्रचार एक चौथाई कम हो जाता है, (उस समयकी स्थितिके अनुसार वाग्दण्डके द्वारा प्रजाका शासन करना उचित है) द्वापरमें धर्मके दो ही पैर रह जाते हैं, (उस समयके लिये अर्धदण्ड उपयुक्त है) किंतु कलियुगमें तो धर्मका चतुर्थ भाग ही शेष रह जाता है; अतः उस समय मनुष्योंकी आयु, शक्ति और कालका विचार करके ही दण्डका विधान करना उचित है । स्वायम्भुव मनुने प्राणियोंपर अनुग्रह करके बताया है कि मनुष्यको अहिंसामय धर्मका ही पालन करना चाहिये; जिससे वह सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले धर्मके महान् फलसे वञ्चित न रहने पावे ।'

कपिलका स्यूमरश्मिसे निवृत्तिप्रधान धर्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! एक ही उद्देश्य लेकर चलनेवाले गार्हस्थ्यधर्म और योगधर्ममें कौन श्रेष्ठ है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! दोनों धर्म महान् हैं, दोनोंका ही पालन कठिन है, दोनों उत्तम फल देनेवाले हैं और दोनोंका सत्पुरुषोंने आचरण किया है । मैं इन दोनों धर्मोंकी प्रामाणिकता बतला रहा हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो; इससे तुम्हारे मनका संदेह दूर हो जायगा । इस विषयमें जानकार लोग स्यूमरश्मि और कपिलके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जो इस प्रकार है:—

कपिलजी बोले—स्यूमरश्मे ! यम-नियमोंका पालन करनेवाले यति ज्ञान-मार्गका आश्रय लेकर परब्रह्मको प्राप्त होते हैं । सम्पूर्ण लोकोंमें कहीं भी उनकी गतिका अवरोध नहीं होता । उन्हें शीत-उष्ण आदि द्वन्द्व व्यथा नहीं पहुँचाते । वे कभी किसीको माया नहीं देकते और न आशीर्वाद ही देते हैं । यही नहीं, वे कामनाओंके बन्धनमें भी नहीं बँधते । सब प्रकारके पापोंसे मुक्त, पवित्र तथा शुद्धचित्त होकर विचरते रहते हैं । उनकी बुद्धि एक निश्चित सिद्धान्तपर स्थिर होती है । वे सब कुछ त्यागकर मोक्षको

अपनाते हैं, ब्रह्ममें ही निवास करते हैं और स्वयं भी ब्रह्म-स्वरूप होते हैं। शोक उनका स्वप्न नहीं कर सकता और रजोगुणका उनमें नाम भी नहीं रहता। उन्हें सनातन लोककी प्राप्ति होती है। उनकी इस उत्तम गतिको प्राप्त कर लेनेपर गार्हस्थ्य-धर्मके पालनकी क्या आवश्यकता रह जाती है?

स्मृतरश्मिने कहा—ज्ञान प्राप्त करके परब्रह्ममें स्थित हो जाना ही यदि पुरुषार्थकी चरम शोभा है, यदि वही उत्तम गति है, तब तो गृहस्थ-धर्मका प्रहृत्य और भी बढ़ जाता है; क्योंकि गृहस्थोंका सहारा लिये बिना कोई भी आश्रम न तो चल सकता है और न ज्ञानको निष्ठा ही प्रदान कर सकता है। जैसे समस्त प्राणी माताको गोदका सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ-आश्रमके अवलम्बते ही दूसरे आश्रम टिक सकते हैं। गृहस्थ ही यज्ञ और तप करता है तथा मनुष्य अपने कल्याणके लिये जो कुछ भी चेष्टा करता है, जिस किसी भी धर्मका आश्रय लेता है, उस सबकी जड़ गार्हस्थ्य ही है। समस्त प्राणी संतानको उत्पत्ति करके मुक्ती होते हैं; किंतु संतानका भूंह देनेकी सुविधा गार्हस्थ्य-आश्रमके सिवा और कहाँ हो सकती है? वैदिक धर्मकी सनातन मर्यादा तीनों लोकोंका हित करनेवाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णोंमें गर्भोद्धानके पहले वेद-मन्त्रोंका उपयोग होता है। इसके बाद प्रत्येक संस्कारमें तथा अन्यान्य कामोंमें भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। वे ही वेद पुकार-पुकारकर कहते हैं कि मनुष्य पितरों, देव-ताओं और ऋषियोंके श्रेणी हैं। ऐसी दशामें गृहस्थाश्रममें रहकर उन ऋषियोंको चुकाये बिना किसीका भी मोक्ष कैसे हो सकता है? वेदोंकी अवहेलनासे नहीं, उनके अनुसार कर्म करनेसे ही मनुष्यको परब्रह्मकी प्राप्ति होती है।

कपिलजीने कहा—यदिमान पुरुषको वर्षों, पीढ़ीमात्र, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य आदि वैदिक कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि उनमें सनातन धर्मकी स्थिति है। किंतु जो संन्यास-धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठानसे निवृत्त हो गये हैं तथा धीरे, पवित्र एवं शूद्रस्वरूपमें स्थित हैं; वे ब्रह्मज्ञानसे ही देवताओंको तृप्त करते हैं। जो सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, सबको अंतमभावसे देखते हैं तथा जिनका कोई विशेष पद (स्थान) नहीं है; उस ज्ञानी पुरुषकी गतिका पत्ता खपानेमें देवता भी मोहित हो जाते हैं। कल्याण चाहते-वालेको इन्द्रियोंका संयम करना आवश्यक है। जो ज्ञाता नहीं खेलता, दूसरेका धन नहीं लेता, नीच पुरुषका बनाया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करता तथा श्रेयसे आकर किसीको मार नहीं बैठता, उसके हाय-पर्यं सुरक्षित रहते हैं। किसीकी गाली न दे, ध्ययं न बोले, दूसरोंकी चुगली या निन्दा न करे,

बोड़ा और सत्य बचन बोले तथा सदा साधधान रहे—ऐसा करनेसे वाक्-इन्द्रियोंको रक्षा होती है। उपवास न करे, किंतु बहुत अधिक भी न धाय, सदा भोजनके लिये क्षान्तायित न रहे, सज्जनोंका सङ्ग करे और जोवन-निवाहके लिये जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न भंडमें डाले—इससे उदरका संयम होता है। परायी स्त्रीसे संसर्ग न करे, अपनी स्त्रीके साथ भी श्रुतकालके अतिरिक्त समयमें समागम न करे, एकपत्नीव्रत धारण करे; इससे उपर्येन्द्रियोंको रक्षा होती है। जिसके उपर्य, उदर, हाय-पर्यं और बाणीके साथ ही सम्पूर्ण इन्द्रियोंके द्वार संयमद्वारा सुरक्षित होते हैं; वही चास्त्वमें द्विज है। जिसको इन्द्रियाँ यशमें नहीं हैं, उसके समस्त कर्म निष्फल होते हैं। ऐसे मनुष्यको तप और यज्ञसे क्या लाभ हो सकता है? जिसके पास लोकोटी या धोतीके सिवा और कोई वस्त्र न हो, जो बिना बिछीनेके सोता हो, बाँहोंकी ही तकिया लगाता हो और सदा शान्त रहता हो, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो दूसरोंके दिवे हुए सुख-दुःखका स्मरण नहीं रखता, प्रकृति और उसके कार्योंको जानता है तथा जिसे सम्पूर्ण भूतोंकी गतिका ज्ञान है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जो समस्त प्राणियोंसे निर्भय रहता है, जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते तथा जो सम्पूर्ण जीवोंका आत्मा है, वही देवताओंके मतमें ब्राह्मण कहलाता है। जिसका आश्रय लेकर किया हुआ तप संस्कारके मूलभूत अज्ञानका नाश कर डालता है, उस साधु जनोचित आचारकी बहुत बड़ी महिमा है। वह अनादि कालसे चला आता है, मनुष्यजाति बही सनातन धर्म है तथा उसके फलमें कभी बाधा नहीं आती। वह सम्पूर्ण धर्मोंमें अति-प्रति है, आपत्ति तथा प्रमादसे रहित है। जो लोग उस आचारका पालन करनेमें असमर्थ होते हैं, वे ही परमेश्वर-की प्राप्ति करनेवाले तथा अथर्व फल देनेवाले कल्याणकारी कर्मोंको फलहीन बताया करते हैं। गुणोंके कार्यभूत जो यज्ञ-यागादि हैं, उनके स्वरूप और विधि-विधानको समझना कठिन है, समझनेपर भी उनका अनुष्ठान करना मुश्किल है और यदि अनुष्ठान भी किया जाय तो उनसे नाशवान् फलकी ही प्राप्ति होती है—इस बातको तो भुम भी जानते ही हो।

स्मृतरश्मिने कहा—ब्रह्मन्! मेरा नाम स्मृतरश्मि है और मैं ज्ञान-प्राप्तिके लिये यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने जो कुछ कहा है, वह अपने पशुका समर्पण करनेके लिये नहीं; अपितु कल्याणको इच्छा रखकर सरतभावसे ही अपनी बातें सेवामें निवेदन की हैं। इस समय मैं आपकी शरणमें आता हूँ, आप मुझे गायु समझकर ही उपदेश कीजिये। चारों वर्णों और आश्रमोंके लोग एकमात्र सुखके ही उद्देश्यसे अपने-

अपने कर्मोंमें प्रवृत्त हो रहे हैं, अतः आप यह बतानेकी कृपा करें कि अक्षय मुख क्या है ?

कपिलजीने कहा—किसी भी वर्ण या आश्रममें प्रवृत्ति क्यों न हो, जिस कर्मका आचरण शास्त्रके अनुसार (कामना और अहंकारका त्याग करके) किया जाता है, वह पुरुषार्थका साधक होता है। जो जिस वर्ण या आश्रमके कर्तव्यका

पालन करता है, उसको वहाँ ही अक्षय मुखकी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विवेकका अनुसरण करता है, उसके समस्त दोषोंका ज्ञानसे परिमार्जन हो जाता है। शास्त्रीय मार्गसे हट जानेपर किसी भी वृत्तिका आश्रय क्यों न लिया जाय, वह जन्म-मरणके चक्करमें डालकर प्रजाका सर्वनाश ही करती है।

ब्रह्मज्ञानमें सभी आश्रमोंका अधिकार बताते हुए ब्रह्मतत्त्वका निरूपण

कपिलजीने कहा—सब लोकोंके लिये वेद ही प्रमाण हैं, वेदोंका उल्लङ्घन कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मके दो रूप समझने चाहिये—शब्दब्रह्म और परब्रह्म। जो पुरुष शब्द-ब्रह्ममें पारंगत है, वह परब्रह्मको भी प्राप्त कर लेता है। जो निष्कामभावसे अग्निहोत्रादि कर्मकाण्डमें लगे रहनेवाले पुरुष कभी पापकर्ममें प्रवृत्त नहीं होते, उनके मानसिक संकल्प सिद्ध हो जाते हैं तथा उन्हें विशुद्ध ज्ञानस्वरूप परब्रह्मका निश्चय हो जाता है। वे किसीपर श्रद्धा नहीं करते और न किसीपर बोधारोपण ही करते हैं। उनमें अहंकार और मत्सरादि दुर्भावनाओंका सर्वथा अभाव रहता है, ज्ञानके साधन श्रवण, मनन और निदिध्यासनमें उनकी निष्ठा होती है, उनके जन्म-कर्म और ज्ञान तीनों ही शुद्ध होते हैं तथा वे समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं। ऐसे अनेकों राजा और ब्राह्मण हो गये हैं जो अपने कर्मोंका त्याग न करके गृहस्थाश्रममें ही रहे और विधिवत् साधन करते रहे। वे सब प्राणियोंपर समदृष्टि रखते थे; सरल, संतुष्ट, ज्ञाननिष्ठ, धर्मके फलका प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले और शुद्धचित्त होते थे तथा शब्दब्रह्म और परब्रह्म दोनोंहीमें श्रद्धा रखते थे। वे व्रतोंका यथायत् पालन करके पहले चित्त शुद्ध करते थे और कठिनतामें तथा दुर्गम स्थानोंमें पढ़ जानेपर भी धर्मानुष्ठानमें तत्पर रहते थे। इसीमें उन्हें सुख भी जान पड़ता था। इस तरह सत्यधर्मका आश्रय लेनेके कारण वे अत्यन्त तैजस्वी माने जाते थे। वे भी विपयोंका प्रकाश करनेवाली बुद्धिका भरोसा न रखकर शास्त्रका ही अनुसरण करते थे। वे बड़े पवित्र, नियमनिष्ठ और यशस्वी होते थे। कामना और कर्मबन्धनसे मुक्त होकर भी वे नित्यप्रति यज्ञोंद्वारा भगवान्-का यजन करते तथा फाम-शोधादिको छोड़कर बड़े कठोर कर्मोंका आचरण करते थे। अपने उदार कर्मोंके कारण उनकी सर्वत्र प्रशंसा होती थी। स्वभावसे भी वे बड़े पवित्र-चित्त, सरल, शान्तिपरायण और स्वधर्मनिष्ठ होते थे। इसलिये उनके यज्ञ, वेदाध्ययन, शास्त्रानुसारी कर्म, समद-

समयपर किया हुआ शास्त्राध्ययन और संकल्प—ये सभी अनन्त फलवाले होते थे—यह बात हमने सदासे सुन रखी है। ऐसे धीर, वीर और कठोर कर्मोंका आचरण करनेवाले स्वकर्मनिष्ठ पुरुषोंका तप अविद्याकी निवृत्तिके लिये भयंकर शस्त्र बन जाता है।

ब्रह्मनिष्ठ पुरुष एक ही आश्रमधर्मको चार प्रकारसे विभक्त हुआ मानते हैं। संतजन उसका विधिवत् पालन करके परमगति प्राप्त कर लेते हैं। कोई लोग संन्यासी होकर, कोई वनमें रहते हुए वानप्रस्थरूपसे, कोई गृहस्थ रहकर और कोई ब्रह्मचर्य-आश्रमका सेवन करते हुए ही उस आश्रमधर्मका पालन करके परमपद प्राप्त करते हैं। इस समय वे ही द्विजगण आकाशमें नक्षत्ररूपसे दिखायी देते हैं। नक्षत्रोंके समान ही अनेकों तारागण भी हैं। इन सबने संतोपके द्वारा ही यह अनन्तपद प्राप्त किया है—ऐसा वैदिक सिद्धान्त है। जो इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करता है, गुणसेवामें तत्पर रहता है, दृढ़ निश्चयवाला है और समाहितचित्त है, वही 'ब्राह्मण' है। उसके सिवा और कौन 'ब्राह्मण' हो सकता है? चारों वर्ण और चारों आश्रमोंके उन तृष्णाहीन, विशुद्धबुद्धि और मोक्षपरायण पुरुषोंके लिये जाग्रदादि तीनों अवस्थाओंके साक्षी तुरीयका अनुभव करानेवाला वह शम-दमादिरूप धर्म समान ही है। शुद्धचित्त और संयतत्मा ब्राह्मण उस सनातन परब्रह्मको प्राप्त करते हैं। जो संतोषी और त्यागी है, वही ज्ञानका अधिकारी है। यह मोक्षदायिनी विद्या यतियोंका तो सनातन धर्म है—यह यतिधर्म अन्य आश्रमोंके धर्मोंसे मिला हुआ ही अथवा स्वतन्त्र, इसे जो कोई भी अपनी शक्तिके अनुसार पालन करता है, उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। केवल शक्तिहीन (साधनमें तत्परता न रखनेवाले) पुरुषोंको ही इस धर्मका पालन करनेकी हिम्मत नहीं होती, पवित्रात्मा तो इसके द्वारा परमात्मद पानेकी इच्छा करके संसारसे मुक्त हो जाता है।

स्यूमरश्मिने पूछा—भगवन् ! आप तो ज्ञाननिष्ठ हैं

और गृहस्थलोग कर्मनिष्ठ होते हैं। किंतु आप इस समय निष्ठामें सभी आधर्मिकों एकताका प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान और कर्मकी एकता और प्यारता दोनोंहीका भ्रम होनेमें इनका ठीक-ठीक अन्तर समझमें नहीं आता। अतः उसे आप यथार्थ रीतिसे समझानेकी कृपा करें।

फापिलजोने कहा—कर्म मनकी शुद्धि करते हैं और ज्ञान परमगतिरूप है। जब कर्मोंद्वारा चित्तके दोष जल जाते हैं तो मनुष्य रसस्वरूप ज्ञानमें स्थित होता है। सब प्राणियोंपर दया, क्षमा, शान्ति, अहिंसा, सत्य, सरलता, अद्रोह, निरभिमानता, लज्जा, तितिक्षा और शम—ये ब्रह्मप्राप्तिके उपाय हैं। इनके द्वारा पुण्य परब्रह्मकी प्राप्ति कर लेता है। विद्वान् पुण्यको इस प्रकार कर्मफलका निश्चय समझना चाहिये। जिस स्थितिको संतुष्ट, शान्त, विशुद्धचित्त और ज्ञाननिष्ठ पुण्य प्राप्त करते हैं उसीका नाम 'परमर्गत' है। जो पुण्य सम्पूर्ण वेद और उनके प्रतिपाद्य परब्रह्मकी ठीक-ठीक जानता है, उसीको 'वेदज्ञ' कहते हैं, और सब तो केवल

धर्मकी समान हैं। वेदत पुरुष सभी विषयोंको जानते हैं; क्योंकि वेदमें उन सभीका समावेश है। जो कुछ है और जो नहीं है, उन सभी विषयोंकी स्थिति वेदमें है। सम्पूर्ण शास्त्रोंकी एकमात्र निष्ठा यही है कि यह दुःख जगत् प्रतीविकात्ममें तो है और बाध हो जानेपर नहीं है। ज्ञानीकी दृष्टिमें सदसत्स्वरूप ब्रह्म ही इस जगत्का आदि, अन्त और मध्य है। सब कुछ त्याग देनेपर ही उसकी प्राप्ति होती है। सम्पूर्ण वेदोंमें उसीका प्रतिपादन हुआ है। वह अपने आनन्दस्वरूपसे सबमें अनुगत तथा अपवर्ग (भोक्ष) में प्रतिष्ठित है। अतः वह ब्रह्म, श्रुत, सत्य, ज्ञात, ज्ञातव्य, सबका आत्मा, चराचरमूर्ति, विशुद्धमुखस्वरूप, मद्भ्रममय, सर्वोत्कृष्ट, अव्यवत्तको भी कारण और अविनाशी है। उस आकाशके समान असङ्ग, अविनाशी और एकरस तत्त्वका ज्ञाननेतोवाने पुण्य तेज, क्षमा और शान्तिरूप शुभ साधनोंके द्वारा साक्षात्कार करते हैं। जो वास्तवमें ब्रह्मवेत्तासे अभिन्न है, उस परब्रह्मको हम नमस्कार करते हैं।

धर्मकी प्रधानता बतलानेके लिये एक ब्राह्मण और कुण्डधार मेघकी कथा

राजा मुग्धिष्ठिरने पूछा—पितामह! वेदोंमें धर्म, अर्थ और काम तीनोंहीको प्रशंसा की है। अतः आप मुझे यह बताइये कि इनमें किसको प्राप्त करना सबसे अच्छा है।

भीष्मजी बोले—राजन्! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास है। एक बार कुण्डधार नामके मेघने प्रसन्न होकर अपने एक भक्तपर कृपा की थी। वह प्रसंग में तुम्हें सुनाता हूँ। किसी समय एक निर्धन ब्राह्मणने सकामभावसे धर्म करना चाहा। तब उसने यज्ञानुष्ठानके लिये धन पानेकी इच्छासे बड़ा कठोर तप किया। इसी निश्चयसे उसने भक्तिपूर्वक देवताओंकी बड़ी पूजा की, तो भी उसे धन न मिला। एक दिन उसने अपने समीप देवताओंके सेवक कुण्डधार मेघको खड़ा देखा। उसे देखते ही ब्राह्मणके मनमें उसके प्रति भक्तिभाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा 'यह देवता मुझे अवश्य बहुत-सा धन देगा।' यह सोचकर उसने घृण, वीष, चन्दन, पुष्प और तरह-तरहके नैवेद्योंद्वारा उसकी पूजा की। इससे थोड़ी ही बेरमें प्रसन्न होकर मेघने कहा, 'सत्पुण्योंने ब्रह्महत्या, मुरापातन, चोरी और धर्मभंग करनेवालोंके लिये तो प्रायश्चित्त बताये हैं, किंतु कृत्यनके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है।'

इसके बाद वह ब्राह्मण कुशाओकी शम्पापर सो गया। वह शम, दम, तप और भक्ति-भावसे सम्पन्न तथा शुद्ध

हृदयवाला था। उसे रातहीमें कुण्डधारके प्रति अपनी



भक्तिका परिचय मिल गया। उसने स्वप्नमें बहुत-से देवता देखे। उनमें मणिमद्र नामका एक देवश्रेष्ठ अन्य देवताओंके सामने तरह-तरहके फलयाचकोंको प्रस्तुत कर रहा था। देवतालोग उन फलयाचकोंके शुभ कर्मोंके बदले उन्हें राज्य और धन आदि दे रहे थे। इतनेहीमें कुण्डधार देवताओंके आगे आकर पृथ्वीपर लेट गया। तब उससे मणिमद्रने पूछा, 'कुण्डधार! तुम क्या चाहते हो?'

कुण्डधार बोला—यह ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवतालोग मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं इसके ऊपर कुछ कृपा कराना चाहता हूँ, जिससे इसे कुछ सुख मिल सके।

तब देवताओंके ही कहनेसे मणिमद्रने उससे कहा, 'उठो! उठो! तो, तुम्हारा काम बन गया, अब प्रसन्न हो जाओ। देखो, यदि इस ब्राह्मणको धनकी इच्छा हो तो इसे मनमाना धन दे दो।'

किंतु कुण्डधारने यह सोचकर कि भानवदेह चञ्चल और नाशवान् है उससे कहा, 'इस ब्राह्मणकी वृद्धि तपमें लग जाय। मैं अपने भक्तको रत्नोंसे भरी हुई पृथ्वी या कोई विशाल रत्नराशि नहीं देना चाहता, मेरी तो यही इच्छा है कि यह धार्मिक हो जाय।'

मणिमद्रने कहा, 'राज्य और तरह-तरहके दूसरे सुख भी सर्वदा धर्मके ही फल हैं। इसलिये इसे फल ही भोगने दो न? उनमें किसी प्रकारका शारीरिक क्लेश भी नहीं है।'

भीष्मजी कहते हैं—किंतु इसपर भी कुण्डधारने तरह-तरहसे धर्मके लिये ही आग्रह किया। इससे देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए और मणिमद्रने कहा, 'तुमपर और इस ब्राह्मणपर सभी देवता प्रसन्न हैं। अतः यह धर्मात्मा होगा और इसकी वृद्धि धर्ममें ही रहेगी।' इस प्रकार सफलमनोरथ होकर वह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वह वर पाया जो दूसरोंके लिये बहुत दुर्लभ था।

इतनेहीमें ब्राह्मणको अपने पास बहुत-से महीन और बहुमूल्य वस्त्र दिखायी दिये। उन्हें देखकर उसे वराम्य ही हुआ। वह कहने लगा, 'मेरी तपस्याका उद्देश्य इस कुण्डधारने ही नहीं समझा तो दूसरा कौन समझ सकेगा? अच्छा, अब मैं वनकी ही चलता हूँ, धर्ममय जीवन बिताना ही सबसे अच्छा है।'

भीष्मजी कहते हैं—राजन्! तब वह ब्राह्मण वनमें रहकर बड़ा घोर तप करने लगा। वह देवता और अतिथियोंका सत्कार करके बचे हुए फल-मूलादिसे निर्वाह करता था। फिर फल-मूलादिको भी छोड़कर पत्ते खाने लगा। तपश्चत्

उत्ते भी छोड़कर पानी पीकर रहने लगा। इसके बाद कई वर्षतक वायु भक्षण करके ही रहा। इस तरह धर्मपर श्रद्धा रखनेसे और कठोर तपस्या करते रहनेसे उसकी दृष्टि दिव्य हो गयी। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि यदि मैं प्रसन्न होकर किसीको धन या राज्य देना चाहूँ तो वह अवश्य राजा हो जायगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। इतनेहीमें उसके तपके प्रभावसे तथा भक्तिभावसे प्रेरित होकर कुण्डधार प्रकट हुआ। ब्राह्मणने उसकी विधिवत् पूजा की। तब कुण्डधारने कहा, 'विप्रवर! तुम्हें बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उसके द्वारा तुम राजाओंकी गति और भिन्न-भिन्न लोकोंको स्वयं देख लो।' ब्राह्मणने अपने दिव्य नेत्रोंसे देखा कि हजारों राजा नरकमें पड़े हुए हैं। कुण्डधार बोला, 'तुमने बड़े भक्तिभावसे मेरी पूजा की थी। इसपर भी यदि तुम धन पाकर दुःख ही भोगते रहते तो बताना, मेरा क्या उपकार होता और क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता। देखो, देखो, एक बार तुम फिर इनकी दशापर दृष्टि डालो। पता नहीं, मनुष्य भोगोंकी लालसा क्यों करता है? इससे उसके लिये स्वर्गका द्वार तो प्रायः बंद ही हो जाता है।' इस बार ब्राह्मणने देखा कि उन भोगी पुरुषोंको काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, तन्द्रा और आलस्यादि घेरे हुए खड़े हैं। कुण्डधारने कहा, 'देखो, सब प्राणी इन्हीं दोषोंसे घिरे हुए हैं। किंतु देवताओंकी कृपासे आज तुम तो अपने तपके प्रभावसे दूसरोंको भी राज्य और धन देनेमें समर्थ हो गये हो।'

राजन्! तब वह ब्राह्मण सिर झुकाकर कुण्डधारके आगे लेट गया और कहने लगा, 'आपने मुझपर बड़ी कृपा की है। आपके स्नेहको न जानकर मैंने काम और लोभके कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की है, उसके लिये आप मुझे क्षमा करें।' कुण्डधारने 'मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका हूँ' ऐसा कहकर ब्राह्मणको गले लगाया और फिर वहीं अन्तर्धान हो गया। इस प्रकार कुण्डधारकी कृपासे तपस्याद्वारा सिद्धि पाकर वह ब्राह्मण सब लोकोंमें विचरने लगा। आकाशमार्गसे चलना, संकल्पद्वारा अभीष्ट वस्तुको प्राप्त कर लेना तथा धर्म, शक्ति और योगके द्वारा जो परमगति मिलती है वे सभी सिद्धियाँ उसे प्राप्त हो गयीं। देवता, ब्राह्मण, संतजन, यक्ष, मनुष्य और चारण—ये सब भी धार्मिकोंका ही आदर करते हैं, धनाढ्य या कामी पुरुषोंका नहीं। राजन्! देवताओंका तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, इसीसे तुम्हारी वृद्धि धर्ममें लगी हुई है। धनमें तो सुखका लेशमात्र ही रहता है, परम सुख तो धर्ममें ही है।

पापी, धर्मात्मा, विरक्त और मुक्त होनेके कारण तथा मोक्षके साधनोंका वर्णन

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! मनुष्य पापी किस प्रकार हो जाता है ? धर्ममें किस प्रकार प्रवृत्त होता है ? उसे वैराग्य कैसे होता है ? और वह मोक्ष किस उपायसे प्राप्त करता है ?

भीष्मजी बोले—राजन् ! तुम्हें सब धर्मोंका पता है, तो भी धर्ममार्गदात्री स्थितिके लिये मुझसे प्रश्न कर रहे हो । अब्ज, तुम आरम्भसे ही मोक्ष, वैराग्य, पाप और धर्मके विषयमें मुनो । मनुष्य विषयोंको ठीक-ठीक जाननेके लिये उनमें इच्छापूर्वक प्रवृत्त होता है । इससे जिस विषयमें उसका राग होता है, उसे पानेके लिये वह बहूतसे काम करता है । वह अपने प्रिय रूप और गन्धादिका बार-बार सेवन करना चाहता है । इससे उसका उनमें राग हो जाता है और फिर उसपर क्रमशः द्वेष, लोभ और मोहका भी अधिकार हो जाता है । इस प्रकार लोभ, मोह एवं राग-द्वेषसे प्रस्त होकर उसकी बुद्धि धर्ममें प्रवृत्त नहीं होती । वह केवल कपटसे ही धर्मका आवरण करता है और कपटसे ही धन कमाना चाहता है । इस प्रकार बुद्धिकी कपटमें प्रवृत्ति हो जानिसे उसकी पापमें ही रुचि हो जाती है । फिर तो यदि उसे कोई सगे-सम्बन्धी पाप करनेसे रोकते हैं तो वह शास्त्रके प्रमाण देकर उन्हें युक्तिपूर्वक उत्तर देने लगता है । राग और मोहके कारण उसका हीन प्रकारका अधर्म बढ़ता है ;— वह पापका चिन्तन करता है, पाप ही बोलता है और पाप ही करता है । साधुजनोंको तो उसके दोष दिखायी देते हैं, परंतु जो वैसे ही आचरणवाले होते हैं, वे उसके मित्र बन जाते हैं । उसे तो इस लोकमें ही सुख नहीं मिलता, परलोककी तो बात ही क्या है ?

इस प्रकार तो पुरुष पापी बनता है, अब धर्मात्माकी बात सुनो । धर्मात्मा पुरुष सर्वदा कल्याणकारी धर्मोंका आचरण करता है, इसलिये उसका कल्याण ही होता है । वह कल्याणप्रद धर्मोंके द्वारा उत्तम गति प्राप्त करता है । जो पुरुष सुख-दुःखकी पहचानमें कुशल है, अपने बुद्धिसे पहले ही इन राग-द्वेषादि दोषोंको देख लेता है तथा सत्पुरुषोंकी सेवा करता है, उसकी बुद्धिका साधुओंकी सेवा और सत्कर्मोंके अभ्याससे विकास होता है तथा उसे धर्ममें ही आनन्द आता है और धर्म ही उसके जीवनका आधार बन जाता है । उसका मन केवल धर्मसे प्राप्त हुए धर्मों ही जाता है । यह जहाँ गुण देलता है, उसीके भूतको सीखता है । इस प्रकारके आचरणसे पुरुष धर्मात्मा बनता है और उसे

धर्मनिष्ठ सुहृद् प्राप्त होते हैं । ऐसे सच्चे मित्र और पवित्र धन पाकर वह इस लोकमें सुखी रहता है और परलोकमें भी सुख पाता है । ऐसा पुरुष शब्दादि पाँचों विषयोंपर प्रमत्त्व प्राप्त कर लेता है । किंतु यह धर्मका ऐसा फल पाकर भी हर्षसे फूल नहीं जाता । वह इससे तृप्त न होनेके कारण विवेकदृष्टिसे वैराग्यको हो बढ़ाता है । ज्ञाननेत्र खुल जानेके कारण जब उसे काम, राग और मंग्यमें सुख नहीं जान पड़ता तथा उसका मन शब्द, स्पर्श और रूपमें भी नहीं फँसता तो वह सब कामनाओंसे मुक्त हो जाता है ; और धर्मको नहीं छोड़ता । सम्पूर्ण लोकोंको नाशवान् सभप्रकर वह धर्मके फलभूत स्वर्गाविकी इच्छाको भी त्याग देनेका प्रयत्न करता है । तदनन्तर उपायपूर्वक मोक्षके लिये यत्नशील हो जाता है । इस प्रकार धीरे-धीरे मनुष्यमें वैराग्यकी प्रवृत्ति होती है, इससे वह पाप करना छोड़कर धर्मात्मा बन जाता है और फिर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है । भरतभेट ! मुझसे मुझसे पाप, धर्म, वैराग्य और मोक्षके विषयमें प्रश्न किया या, तो मैंने तुम्हें उनका स्वरूप समझा दिया । अतः तुम सब प्रकारको परिस्थितियोंमें धर्मका ही आचरण करना ; क्योंकि जो लोग धर्ममें डटे रहते हैं उन्हें सदा रहनेवाली परम सिद्धि प्राप्त होती है ।

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! आपने उपायसे मोक्षकी प्राप्ति बताया, बिना उपायसे नहीं, तो अब मैं आपसे विधिबन्त उसका उपाय ही सुनना चाहता हूँ ।

भीष्मजी बोले—महाप्राज्ञ ! तुम तरह-तरहके उपायोंसे सर्वदा सब प्रकारके हितकर साधनोंकी खोज किया करते हो, इसलिये तुममें यह सूक्ष्म वस्तुओंकी परीक्षा करनेका गुण होना उचित ही है । देखो, जो मार्ग पूर्वसंभ्रमकी ओर जाता है, वह परिवर्तकी ओर नहीं जा सकता । इसी प्रकार मोक्षका भी एक ही मार्ग है ; मुनो, मैं उसका विस्तारसे वर्णन करता हूँ । मनुष्य पुरुषको चाहिये कि क्षमासे प्रोथका, संकल्प-त्यागसे कामनाओका, भगवद्भ्यानादि सात्त्विक गुणोंके सेवनसे निद्राका, अप्रमादसे भयका, आत्माके चिन्तनसे स्वास-प्रश्वासका तथा धर्मसे इच्छा, द्वेष और कामका नाश करे । क्रम, मोह और संशयपर आवरणका शास्त्रके अभ्याससे तथा सत्यकी विस्मृति और चिन्तना अन्य विषयमें चला जाता—इन दोनों दोषोंका ज्ञानाभ्याससे दमन करे । बात-पितादिजनित उपद्रव और रोगोंका हितकारी, सुपाष्य और परिमित आहारसे, लोभ और मोहका संतोषसे तथा विषयों-

का तत्त्वदृष्टिसे निराकरण करे। अधर्मको द्यासे, धर्मको पालन करके, आशाको भविष्य-चिन्तनका त्याग करके और अर्थको आसक्तिसे त्यागसे जीते। वस्तुओंकी अनित्यताका चिन्तन करके स्नेहका, योगाभ्यासके द्वारा क्षुधाका, कर्षणके द्वारा अभिमानका और संतोषसे तृष्णाका त्याग करे। तन्द्राको खड़ा होकर, तर्क-वितर्कको निश्चयद्वारा, बहुभाषणको मौन-द्वारा और भयको शूरवीरताके द्वारा काङ्क्षमें करे। वाणी आदि बाह्य इन्द्रियोंका मनमें, मनका बुद्धिमें, बुद्धिका आत्मामें, उसका शुद्ध चेतन परमात्मामें निरोध करे। इस प्रकार मनुष्यको शान्त और पवित्रकर्मा होकर इस परमात्मपदका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसके लिये वह काम, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा—इन पाँच दोषोंको छोड़कर वाणीका

संयम रखते हुए योगाभ्यास करे। ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, नम्रता, क्षमा, शौच, आहारशुद्धि और इन्द्रिय-संयम—इन सबके द्वारा मनुष्यका तेज बढ़ता है और उसका पाप नष्ट हो जाता है। उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदयमें विज्ञानका आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार जब वह निष्पाप और तेजस्वी हो जाय तो भिताहार करते हुए इन्द्रियोंको जीतकर तथा काम-क्रोधको काङ्क्षमें रखकर अपने शुद्धस्वरूपको परब्रह्मपदमें स्थित करनेका संकल्प करे। अमूढ़ता, अनासक्ति, काम-क्रोधको त्यागना, दीनता, गर्व और उद्वेगसे दूर रहना तथा निष्कामभावसे मन, वाणी और शरीरका संयम करना—यही मोक्षका शुद्ध और निर्मल मार्ग है।

भूत और इन्द्रियादिके विषयमें नारद और देवल मुनिका तथा तृष्णाक्षयके विषयमें माण्डव्य और जनकका संवाद

भीष्मजीने कहा—राजन् ! इस विषयमें देवर्षि नारद और देवलका संवादरूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। एक दिन बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ वयोवृद्ध देवल ऋषिको बैठे देखकर नारदजीने उनसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके विषयमें प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, 'ब्रह्मन् ! यह स्थावर-जङ्गम जगत् कहाँसे उत्पन्न हुआ है और प्रलयकालमें यह किसमें लीन हो जाता है ?'

देवलने कहा—देवर्षे ! सृष्टिके समय परमात्मा जिनसे समस्त प्राणियोंकी रचना करते हैं उन्हें भौतिक विज्ञानवादी विद्वान् 'पञ्चभूत' कहते हैं। परमात्माकी प्रेरणासे काल इन्हींके द्वारा प्राणियोंकी रचना है। जो इनसे भिन्न किसी और तत्त्वको भूतोंका उपादान कारण बताता है, वह निःसंदेह झूठी बात कहता है। नारद ! ये पाँच भूत और छठा काल नित्य अविचल और अविनाशी हैं और तेजोमय महत्तत्त्वकी स्वाभाविकी कलाएँ हैं। किसी भी युक्ति या प्रमाणसे इन छःके अतिरिक्त कोई और तत्त्व नहीं बताया जा सकता। इसलिये जो कोई दूसरी बात कहता है उसका कथन अवश्य निर्मूल है। तुम यही निश्चय करो कि ये छः ही जगत् रूपमें स्थित हैं। पाँच महाभूत, काल तथा भाव और अभाव अर्थात् पूर्वजन्मके संस्कार और अज्ञान—ये आठ तत्त्व नित्य हैं तथा ये ही सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और लयके कारण हैं। प्राणियोंका शरीर पृथ्वीका विकार है, श्रोतेन्द्रिय आकाशसे उत्पन्न हुई है तथा नेत्रेन्द्रिय सूर्यसे, प्राण वायुसे और रक्त

जलसे उत्पन्न हुए हैं। विद्वानोंका मत है कि नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा और जिह्वा—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही विषयोंकी ग्रहण करनेवाली हैं। इन पाँचोंके देखना, सूँघना, सुनना, स्पर्श करना और रसग्रहण करना—ये पाँच गुण हैं तथा रूप, गन्ध, शब्द, स्पर्श और रस—ये पाँच विषय हैं; किंतु इन पाँचों विषयोंका ज्ञान इन्द्रियोंकी नहीं होता, इन्हें जानता तो क्षेत्रज्ञ (जीव) ही है। शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा चित्त श्रेष्ठ है, चित्तसे मन श्रेष्ठ है, मनकी अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिसे भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है। जीव पहले तो अपनी इन्द्रियोंद्वारा उनके अलग-अलग विषयोंको प्रकाशित करता है, फिर मनसे विचार करके बुद्धिद्वारा उनका निश्चय करता है। अध्यात्मचिन्तन करनेवाले पुरुष पाँच इन्द्रिय तथा चित्त, मन और बुद्धि—इन आठोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं।

हस्त, पाद, पायु, उपत्य और मुख—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। इनका भी विवरण सुनो—मुख-इन्द्रियका उपयोग दोलने और भोजन करनेमें है, पाद चलनेकी और हस्त काम करनेकी इन्द्रियाँ हैं तथा पायु और उपत्य त्याग करनेवाली इन्द्रियाँ हैं। इनमें पायु-इन्द्रिय मल त्याग करती है और उपत्य संयुनके समय वीर्य त्यागता है। इनके सिवा छठी इन्द्रिय बल अर्थात् प्राण है। इस प्रकार मैंने अपनी वाणीसे तुम्हें समस्त इन्द्रियाँ और उनके ज्ञान, कर्म एवं गुण सुना दिये। जब अपने-अपने कामसे थककर इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं तब मनुष्य सो जाता है। इन्द्रियोंके निवृत्त हो जाने-

पर भी यदि मन निवृत्त न होकर विषयोका ही सेवन करता रहे तो जो स्वप्नावस्था समझना चाहिये। जाग्रत-अवस्थामें जो सार्वत्रिक, राजस और तामस भाव प्रसिद्ध है, उन्हींका भोगप्रद कर्मकी सहायतासे स्वप्नमें अनुभव होता है।

पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राण, मन, चित्त और बुद्धि—ये चौदह इन्द्रियाँ और सत्त्वादि तीन गुण—ये सव्रह्म तत्त्व माने गये हैं। इनसे पृथक् अठारहवाँ जोब है, जो शरीरमें रहता है और नित्य है। जब जीवका विभोग ही जाता है तो शरीर और उसमें रहनेवाले ये तत्त्व भी नहीं रहते। जिस प्रकार धरमें रहनेवाला पृथ्व एक धरके गिरने-पर दूसरेमें और दूसरेके गिरनेपर तीसरेमें चला जाता है, उसी प्रकार यह जीव कालकी प्रेरणासे अधिष्ठा, काम और कर्मके द्वारा एक देहसे दूसरे देहमें जाता रहता है। अज्ञानी जन देहसे अपना सम्बन्ध मानते हैं, इसलिये देहका विभोग होनेपर उन्हींको दुःख होता है, किंतु ब्रह्मचर्याका निश्चय आत्माकी असङ्गताके विषयमें निरचल होता है, इसलिये उन्हें इससे कुछ भी खेद नहीं होता। यह जीव वास्तवमें कभी किसीका कुछ भी नहीं है। यह तो नित्य और अकेला ही है; सुख-दुःखका कारण तो वेह ही है। जीव न कभी उत्पन्न होता है और न मरता ही है। जब कभी इसे तत्त्वज्ञान होता है तो यह शरीरके सम्बन्धसे छूटकर परमगति प्राप्त कर लेता है। वेह पुण्य-पापमय है। कर्मके क्षयके साथ इसका भी क्षय होता रहता है। इस प्रकार शरीरका क्षय ही जानेपर यह जीव ब्रह्मत्वको प्राप्त हो जाता है। पुण्य-पापके क्षयके लिये आत्मज्ञान ही साधन है। उनका क्षय होकर जब जीवको ब्रह्मभावकी प्राप्ति हो जाती है तभी विद्वान्जगो उसकी परमगति मानते हैं।

राजा युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! हम बड़े ही भ्रू और पापी हैं, हाय ! हमने केवल अर्थके लिये ही अपने

भाई, पिता, पौत्र, सजातीय, सुहृद् और पुत्रोका संहार कर डाला। हमारी यह अर्थतृष्णा किस प्रकार दूर होगी ?

भोष्मजी बोले—राजन् ! एक बार माण्डव्यजीने राजा जनकसे ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय विदेह-राजने जो बात कही थी वह पुरातन इतिहास में सुनई मुनाता है। राजा जनकने कहा था—'मेरी कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिये मैं मौनसे जीवन व्यतीत करता हूँ। यदि निर्मित्य-पुरीमें आग लगी हुई है तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। जो बोधवान् होते हैं उन्हें बड़े समृद्धिसम्पन्न विषय भी दुःखरूप ही जान पड़ते हैं, किंतु अतार्तियोंको तो तुच्छ विषय भी मोहमें डाल देते हैं। लोकमें जो कामजनित सुख है और परलोकका जो विषय सुख है, वे दोनों तृष्णासयसे होनेवाले सुखके सोलहवें अंशके समान भी नहीं हैं। जिस प्रकार कालक्रमसे घटकेकी आयु बढ़नेके साथ सौंघ भी बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार धनके साथ तृष्णाकी भी वृद्धि हो जाती है। यदि घोड़ी-सी वस्तु भी अपनी मान ली जाती है तो नष्ट होनेपर घरी दुःखका कारण बन जाती है; इसलिये काम-नाओंकी वृद्धि नहीं करने चाहिये। कामनाओंकी आसक्ति दुःखरूप ही है। यदि किसी प्रकार धन मिल जाय तो उसे धर्ममें ही लगा दे, भोगोंकी सामग्री इकट्ठी न करे। विद्वान् अन्य सब प्राणियोंको भी अपने ही समान देखता है। इसीसे वह कृतकृत्य और शुद्धचित्त होकर सब वस्तुओंको त्याग देता है। वह सत्य-असत्य, हर्ष-शोक, प्रिय-अप्रिय, भय-अभय आदि सभी द्वन्द्वोंको त्याग कर अत्यन्त शान्त और निर्विकार हो जाता है। तृष्णाका त्याग द्रुपित अन्तःकरण वालोंके लिये अत्यन्त कठिन है, यह मनुष्यके बड़े ही जानेपर भी सिद्धित नहीं होती तथा उसके जीवनपर्यन्त रहनेवाले रोगके समान है। अतः इसका त्याग करनेमें ही सुख है।'

राजाके ये वचन सुनकर माण्डव्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनके कथनकी प्रशंसा करके वे मोक्षमार्गमें तत्पर हो गये।

संन्यासोके स्वभाव, आचरण और धर्मोंका वर्णन

राजा युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! प्रकृतिसे परे जो परब्रह्म अविनाशी परमधाम है उसे कैसे स्वभाव, कैसे आचरण, कैसे विद्या और कैसे कामोंमें तत्पर रहनेवाला पुरुष प्राप्त कर सकता है ?

भोष्मजी बोले—राजन् ! जो पुरुष मोक्ष-धर्मोंमें तत्पर, स्वल्पाहार करनेवाला और जितेन्द्रिय होता है, वह उस प्रकृतिसे अतीत अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है।

मुनिको चाहिये कि अपने घरसे निकलकर फिर ताम और हानिमें तामान भ्रम रक्खे, यदि अपने अमीष्ट पदार्थ मिलने सगें तो उनको भी उपेक्षा करता रहे। अपने नेत्र, वाणी या मनसे किसी वस्तुको द्रुपित न करे अर्थात् मन, वचन और व्यवहारद्वारा कित्तोके प्रति दुर्भाव प्रकट न करे तथा कित्तोके भी सामने या वीछे उसके दोष न कहे। किसी प्राणीको कष्ट न पहुँचावे, मूर्खोंके समान सदा विचरता रहे तथा कभी कित्तोके

का तत्त्वदृष्टिसे निराकरण करे। अधर्मको दयासे, धर्मको पालन करके, आशाको भविष्य-चिन्तनका त्याग करके और अर्थको आसक्तिके त्यागसे जीते। वस्तुओंकी अनित्यताका चिन्तन करके स्नेहका, योगाभ्यासके द्वारा क्षुधाका, करुणाके द्वारा अभिमानका और संतोषसे तृष्णाका त्याग करे। तन्द्राको लड़ा होकर, तर्क-वितर्कको निश्चयद्वारा, बहुमापणको मौन-द्वारा और भयको शूरवीरताके द्वारा काबूमें करे। वाणी आदि बाह्य इन्द्रियोंका मनमें, मनका बुद्धिमें, बुद्धिका आत्मामें, उसका शुद्ध चेतन परमात्मामें निरोध करे। इस प्रकार मनुष्यको शान्त और पवित्रकर्मा होकर इस परमात्मपदका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसके लिये वह काम, क्रोध, लोभ, मय और निद्रा—इन पाँच दोषोंको छोड़कर वाणीका

संयम रखते हुए योगाभ्यास करे। ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, नम्रता, क्षमा, शौच, आहारशुद्धि और इन्द्रिय-संयम—इन सबके द्वारा मनुष्यका तेज बढ़ता है और उसका पाप नष्ट हो जाता है। उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदयमें विज्ञानका आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार जब वह निष्पाप और तेजस्वी हो जाय तो मिताहार करते हुए इन्द्रियोंको जीतकर तथा काम-क्रोधको काबूमें रखकर अपने शुद्धस्वरूपको परब्रह्मपदमें स्थित करनेका संकल्प करे। अमूढता, अनासक्ति, काम-क्रोधको त्यागना, दीनता, गर्व और उद्वेगसे दूर रहना तथा निष्कामभावसे मन, वाणी और शरीरका संयम करना—यही मोक्षका शुद्ध और निर्मल मार्ग है।

भूत और इन्द्रियादिके विषयमें नारद और देवल मुनिका तथा तृष्णाक्षयके विषयमें माण्डव्य और जनकका संवाद

भीष्मजीने कहा—राजन् ! इस विषयमें देवर्षि नारद और देवलका संवादरूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। एक दिन बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ वयोवृद्ध देवल ऋषिको बैठे देवलकर नारदजीने उनसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके विषयमें प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, 'ब्रह्मन् ! यह स्वावर-जङ्गम जगत् कहाँसे उत्पन्न हुआ है और प्रलयकालमें यह किसमें लीन हो जाता है ?'

देवलने कहा—देवर्षे ! सृष्टिके समय परमात्मा जिनसे समस्त प्राणियोंकी रचना करते हैं उन्हें भौतिक विज्ञानवादी विद्वान् 'व-भूत' कहते हैं। परमात्माकी प्रेरणासे काल इन्हींके द्वारा प्राणियोंकी रचता है। जो इनसे भिन्न किसी और तत्त्वको भूतोंका उपादान कारण बताता है, वह निःसंदेह भूठी बात कहता है। नारद ! ये पाँच भूत और छठा काल नित्य अधिचल और अधिनाशी हैं और तेजोमय महत्तत्त्वकी स्वानाविकी कलाएँ हैं। किसी भी युक्ति या प्रमाणसे इन छःके अतिरिक्त कोई और तत्त्व नहीं बताया जा सकता। इसलिये जो कोई दूसरी बात कहता है उसका कथन अवश्य निर्मूल है। तुम यही निश्चय करो कि ये छः ही जगत्-रूपमें स्थित हैं। पाँच महाभूत, काल तथा नाव और अभाव अर्थात् पूर्वजन्मके संस्कार और अज्ञान—ये आठ तत्त्व नित्य हैं तथा ये ही सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और लयके कारण हैं। प्राणियोंका शरीर पृथ्वीका चिकार है, श्रोतेन्द्रिय आकाशसे उत्पन्न हुई है तथा नेत्रेन्द्रिय सूर्यसे, प्राण वायुसे और रक्त

जलसे उत्पन्न हुए हैं। विद्वानोंका मत है कि नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा और जिह्वा—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही विषयोंको ग्रहण करनेवाली हैं। इन पाँचोंके देखना, सूँघना, सुनना, स्पर्श करना और रसग्रहण करना—ये पाँच गुण हैं तथा रूप, गन्ध, शब्द, स्पर्श और रस—ये पाँच विषय हैं; किंतु इन पाँचों विषयोंका ज्ञान इन्द्रियोंको नहीं होता, इन्हें जानता तो क्षेत्रज्ञ (जीव) ही है। शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा चित्त श्रेष्ठ है, चित्तसे मन श्रेष्ठ है, मनकी अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिसे भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है। जीव पहले तो अपनी इन्द्रियोंद्वारा उनके अलग-अलग विषयोंको प्रकाशित करता है, फिर मनसे विचार करके बुद्धिद्वारा उनका निश्चय करता है। अध्यात्मचिन्तन करनेवाले पुरुष पाँच इन्द्रिय तथा चित्त, मन और बुद्धि—इन आठोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं।

हरत, पाद, पायु, उपस्थ और मुख—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। इनका भी विवरण सुनो—मुख-इन्द्रियका उपयोग दौलने और भोजन करनेमें है, पाद चलनेकी और हस्त काम करनेकी इन्द्रियाँ हैं तथा पायु और उपस्थ त्याग करनेवाली इन्द्रियाँ हैं। इनमें पायु-इन्द्रिय मल त्याग करती है और उपस्थ मंथुनके समय वीर्य त्यागता है। इनके सिवा छठी इन्द्रिय बल अर्थात् प्राण है। इस प्रकार मैंने अपनी धापीसे तुम्हें समस्त इन्द्रियाँ और उनके ज्ञान, कर्म एवं गुण सुना दिये। जब अपने-अपने कामसे थककर इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं तब मनुष्य सो जाता है। इन्द्रियोंके निवृत्त हो जाने-

पर भी यदि मन निवृत्त न होकर विषयोका ही सेवन करता रहे तो उसे स्वप्नावस्था समझना चाहिये। जाग्रत-अवस्थामें जो सात्त्विक, राजस और तामस भाव प्रसिद्ध हैं, उन्हींका भोगप्रद कर्मकी सहायतासे स्वप्नमें अनुभव होता है।

पांच कर्मेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, प्राण, मन, चित्त और बुद्धि—ये चौदह इन्द्रियां और सत्त्वादि तीन गुण—ये सत्रह तत्त्व माने गये हैं। इनसे पृथक् अठारहवां जीव है, जो शरीरमें रहता है और नित्य है। जब जीवका विभोग हो जाता है तो शरीर और उसमें रहनेवाले ये तत्त्व भी नहीं रहते। जिस प्रकार धरमें रहनेवाला पुत्र्य एक धरके गिरने-पर दूसरेमें और दूसरेके गिरनेपर तीसरेमें चला जाता है, उसी प्रकार यह जीव कावकी प्रेरणासे अधिष्ठा, काम और कर्मके द्वारा एक देहसे दूसरे देहमें जाता रहता है। अज्ञानो जन्म देहसे अपना सम्बन्ध मानते हैं, इसलिये देहका विभोग होनेपर उन्हींको दुःख होता है, किन्तु बोधयत्नोंका निरवयव आत्माकी असङ्गताने विषयमें निरचल होता है, इसलिये उन्हें इसमें कुछ भी खेद नहीं होता। यह जीव वास्तवमें कभी किसीका कुछ भी नहीं है। यह तो नित्य और अकेला ही है; सुख-दुःखका कारण तो देह ही है। जीव न कभी जल्प होता है और न भरता ही है। जब कभी इसे तत्त्वमान होता है तो यह शरीरके सम्बन्धसे छूटकर परमपति प्राप्त कर लेता है। देह पुण्य-पापमय है। कर्मोंके क्षयके साथ इसका भी क्षय होता रहता है। इस प्रकार शरीरका क्षय हो जानेपर यह जीव ब्रह्मत्वको प्राप्त हो जाता है। पुण्य-पापके क्षयके लिये आत्मज्ञान ही साधन है। उनका क्षय होकर जब जीवको ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है तभी विद्वान्त्वोग उसकी परमपति मानते हैं।

राजा युधिष्ठिरने कहा—पितामह! हम बड़े ही क्रूर और पापी हैं, हाय! हमने केवल अर्थके लिये ही अपने

भाई, पिता, पौत्र, सजातीय, सुहृद् और पुत्रोंका संहार कर डाला। हमारी यह अर्थतृष्णा किस प्रकार दूर होगी?

भोष्मजी बोले—राजन्! एक बार माण्डव्यजीने राजा जनकसे ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय विदेह-राजने जो बात कही भी वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता है। राजा जनकने कहा था—'मिरी कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिये मैं मौनसे जीवन व्यतीत करता हूँ। यदि मियला-पुरीमें आग लगी हुई है तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। जो बोधवान् होते हैं उन्हें बड़े समृद्धिसम्पन्न विषय भी दुःखरूप ही जान पड़ते हैं, किन्तु अज्ञानियोंको तो कुछ विषय भी मोहमें डाल देते हैं। लोकमें जो कामजनित सुख है और परलोकका जो दिव्य सुख है, वे दोनों तृष्णाक्षयसे होनेवाले सुखके सौलहवें अंशके समान भी नहीं हैं। जिस प्रकार कालकर्मसे बछड़ेकी आयु बढ़नेके साथ साँग भी बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार धनके साथ तृष्णाकी भी वृद्धि हो जाती है। यदि धोड़ी-सी वस्तु भी अपनी मान ली जाती है तो नष्ट होनेपर वही दुःखका कारण बन जाती है; इसलिये कामनाओंकी वृद्धि नहीं करना चाहिये। कामनाओंकी आसक्ति दुःखरूप ही है। यदि किसी प्रकार धन मित जाय तो उसे धर्ममें ही लगा दे, भोगोंकी सामग्री इकट्ठी न करे। विद्वान् अन्य सब प्राणियोंको भी अपने ही समान देखता है। इसीसे वह कृतकृत्य और शुद्धचित्त होकर सब वस्तुओंको त्याग देता है। वह सत्य-असत्य, हर्ष-शोक, प्रिय-अप्रिय, मम-अमम आदि सभी द्वन्द्वोंको त्याग कर अत्यन्त शान्त और निर्विकार हो जाता है। तृष्णाका त्याग दूषित अन्त-करण वालोंके लिये अत्यन्त कठिन है, यह मनुष्यके बड़े ही जानेपर भी शिथिल नहीं होती तथा उसके जीवनपर्यन्त रहनेवाले रोगके समान है। अतः इसका त्याग करनेमें ही सुख है।'

राजाके ये वचन सुनकर माण्डव्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनके कथनकी प्रशंसा करके वे मोक्षमार्गमें तत्पर हो गये।

संन्यासिके स्वभाव, आचरण और धर्मोका वर्णन

राजा युधिष्ठिरने पूछा—शदाजी! प्रकृतिसे परे जो परब्रह्म अविनाशी परमधाम है उसे कैसे स्वभाव, कैसे आचरण, कैसे विद्या और कैसे कामोंमें तत्पर रहनेवाला पुत्र्य प्राप्त कर सकता है?

भोष्मजी बोले—राजन्! जो पुत्र्य मोक्ष-धर्मोंमें तत्पर, स्वल्पाहार करनेवाला और जितेन्द्रिय होता है, वह उस प्रकृतिसे अतीत अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है।

मुनिको चाहिये कि अपने घरसे निकलकर फिर लाम और हानिमें समान भाव रखे, यदि अपने अभीष्ट पदार्थ मिलने लगे तो उनको भी उपेक्षा करता रहे। अपने नेत्र, वाणी या मनसे किसी वस्तुको दूषित न करे अर्थात् मन, वचन और व्यवहारद्वारा किसीके प्रति दुर्भाव प्रकट न करे तथा किसीके भी सामने या पीछे उसके दोष न करे। किसी प्राणोंको कष्ट न पहुँचावे, सूर्यके समान सदा विचरता रहे तथा कभी किसीके

का तत्त्वदृष्टिसे निराकरण करे। अधर्मको दयासे, धर्मको पालन करके, आशाको भविष्य-चिन्तनका त्याग करके और अर्थको आसक्तिके त्यागसे जीते। वस्तुओंकी अनित्यताका चिन्तन करके स्नेहका, योगाभ्यासके द्वारा क्षुधाका, करुणाके द्वारा अभिमानका और संतोषसे तृष्णाका त्याग करे। तन्द्राको खड़ा होकर, तर्क-वितर्कको निश्चयद्वारा, बहुभाषणको मौन-द्वारा और भयको शूरवीरताके द्वारा काबूमें करे। वाणी आदि बाह्य इन्द्रियोंका मनमें, मनका बुद्धिमें, बुद्धिका आत्मामें, उसका शुद्ध चेतन परमात्मामें निरोध करे। इस प्रकार मनुष्यको शान्त और पवित्रकर्मा होकर इस परमात्मपदका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसके लिये वह काम, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा—इन पाँच दोषोंको छोड़कर वाणीका

संयम रखते हुए योगाभ्यास करे। ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, नम्रता, क्षमा, शौच, आहारशुद्धि और इन्द्रिय-संयम—इन सबके द्वारा मनुष्यका तेज बढ़ता है और उसका पाप नष्ट हो जाता है। उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदयमें विज्ञानका आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार जब वह निष्पाप और तेजस्वी हो जाय तो मिताहार करते हुए इन्द्रियोंको जीतकर तथा काम-क्रोधको काबूमें रखकर अपने शुद्धस्वरूपको परब्रह्मपदमें स्थित करनेका संकल्प करे। अमूढता, अनासक्ति, काम-क्रोधको त्यागना, दीनता, गर्व और उद्वेगसे दूर रहना तथा निष्कामभावसे मन, वाणी और शरीरका संयम करना—यही मोक्षका शुद्ध और निर्मल मार्ग है।

भूत और इन्द्रियादिके विषयमें नारद और देवल मुनिका तथा तृष्णाक्षयके विषयमें माण्डव्य और जनकका संवाद

भीष्मजीने कहा—राजन् ! इस विषयमें देवर्षि नारद और देवलका संवादरूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। एक दिन बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ वयोवृद्ध देवल ऋषिको बैठे देवकर नारदजीने उनसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके विषयमें प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, 'ब्रह्मन् ! यह स्वावर-जङ्गम जगत् कहाँसे उत्पन्न हुआ है और प्रलयकालमें यह किसमें लीन हो जाता है ?'

देवलने कहा—देवर्षे ! सृष्टिके समय परमात्मा जिनसे समस्त प्राणियोंकी रचना करते हैं उन्हें भौतिक विज्ञानवादी विद्वान् 'पञ्चभूत' कहते हैं। परमात्माकी प्रेरणासे काल इन्हींके द्वारा प्राणियोंकी रचना है। जो इनसे भिन्न किसी और तत्त्वको भूतोंका उपादान कारण बताता है, वह निःसंदेह भ्रूते वात कहता है। नारद ! ये पाँच भूत और छठा काल नित्य अविचल और अविनाशी हैं और तेजोमय महत्त्वकी त्यागाविकी कलाएँ हैं। किसी भी युक्ति या प्रमाणसे इन छःके अतिरिक्त कोई और तत्त्व नहीं बताया जा सकता। इसलिये जो कोई दूसरी बात कहता है उसका कथन अवश्य निर्मूल है। तुम यही निश्चय करो कि ये छः ही जगत् रूपमें स्थित हैं। पाँच महाभूत, काल तथा भाव और अभाव अर्थात् पूर्वजन्मके संस्कार और अज्ञान—ये आठ तत्त्व नित्य हैं तथा ये ही सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और लयके कारण हैं। प्राणियोंका शरीर पृथ्वीका विकार है, श्रोतेन्द्रिय आकाशसे उत्पन्न हुई है तथा नेत्रेन्द्रिय सूर्यसे, प्राण वायुसे और रक्त

जलसे उत्पन्न हुए हैं। विद्वानोंका मत है कि नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा और जिह्वा—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही त्रिषयोंको ग्रहण करनेवाली हैं। इन पाँचोंके देखना, सूँघना, सुनना, स्पर्श करना और रसग्रहण करना—ये पाँच गुण हैं तथा रूप, गन्ध, शब्द, स्पर्श और रस—ये पाँच विषय हैं; किंतु इन पाँचों विषयोंका ज्ञान इन्द्रियोंको नहीं होता, इन्हें जानता तो क्षेत्रज्ञ (जीव) ही है। शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा चित्त श्रेष्ठ है, चित्तसे मन श्रेष्ठ है, मनकी अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिसे भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है। जीव पहले तो अपनी इन्द्रियोंद्वारा उनके अलग-अलग विषयोंको प्रकाशित करता है, फिर मनसे विचार करके बुद्धिद्वारा उनका निश्चय करता है। अध्यात्मचिन्तन करनेवाले पुरुष पाँच इन्द्रिय तथा चित्त, मन और बुद्धि—इन आठोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं।

हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और मुख—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। इनका भी विवरण सुनो—मुख-इन्द्रियका उपयोग बोलने और भोजन करनेमें है, पाद चलनेकी और हस्त काम करनेकी इन्द्रियाँ हैं तथा पायु और उपस्थ त्याग करनेवाली इन्द्रियाँ हैं। इनमें पायु-इन्द्रिय मल त्याग करती है और उपस्थ मँडुनके समय वीर्य त्यागता है। इनके सिवा छठी इन्द्रिय वल अर्थात् प्राण है। इस प्रकार मैंने अपनी वाणीसे तुम्हें समस्त इन्द्रियाँ और उनके ज्ञान, कर्म एवं गुण सुना दिये। जब अपने-अपने कामसे थककर इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं तब तत्त्वज्ञान के लिये तैयार हो जाते हैं।

अवस्थामें उससे शुक्राचार्यजीने पूछा, 'दानवराज ! तुम्हें देवताओंमें परास्त कर दिया है, फिर भी आजकल तुम्हारे ब्रह्ममें किसी प्रकारकी व्यथा नहीं जान पड़ती ! इसका क्या कारण है ?'

वृत्रामुक्तेने कहा—'ब्रह्मन् ! मैंने सत्य और तपके प्रभावसे जीवोंके जन्म-मरणका रहस्य ठीक-ठीक जान लिया है, उसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है। इसलिये अब उसके विषयमें मुझे हर्ष या शोक नहीं होता। जीव कालके अधीन होकर अपने पापोंके कारण बलात्कारसे नरकमें गिरते हैं और कोई अपने पुण्योंके प्रभावसे दिव्यलोकोंमें जाकर आनन्द भनाते हैं। इस प्रकार अपने कुछ पुण्य-पापोंका फल भोगकर बचे हुए कर्मोंके भोगके लिये बार-बार इस लोकमें जन्मते-मरते रहते हैं। कामनाके बन्धनमें बंधे हुए अनेकों जीव नरकमें पड़कर फिर विवश होकर पशु-पक्षियोंकी सहस्रों योनियोंमें जन्म लेते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवोंको जन्म-मरणके चक्रमें पड़े देला है। शास्त्रका भी ऐसा ही सिद्धान्त है कि जैसा कर्म होता है, वैसा ही फल मिलता है। इस तरह सारा संसार भगवान् कालके नियमानुसार चल रहा है।

उसे ऐसी-ऐसी बातें कहते देखकर भगवान् शुक्राचार्यने कहा, 'भैया ! तुम तो बड़े बुद्धिमान् हो, फिर ऐसी असुर-भावका नाश करनेवाली ध्ययं बातें क्यों बना रहे हो ?'

वृत्रामुक्ते बोला—'ब्रह्मन् ! आपको तथा दूसरे महामति महानुभावोंको यह तो मालूम ही है कि पहले विजयके लोभसे मैंने बड़ा तप किया था। उस समय अपने तेजके कारण मैं तीनों लोकोंमें सबसे बढ़-चढ़ गया था और मैंने दूसरे प्राणियोंसे अनेकों भोगसामग्रियां छीन ली थीं। मैं सर्वदा निर्भय होकर आकाशमें विचरता था तथा संसारका कोई प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था। इस प्रकार तपके प्रभावसे मैंने जो ऐश्वर्य पाया था वह मेरे कर्मोंसे ही नष्ट भी हो गया; किन्तु मैं धैर्य धारण करके उसके लिये चिन्ता नहीं करता हूँ। जिस समय मैं देवराज इन्द्रके साथ युद्ध कर रहा था, उस समय उनकी सहायताके लिये आये हुए भगवान् हरिके मैंने दान किये थे। वे प्रभु, नारायण, चंकुष्ठ, पुरुष, अनन्त, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश, हरिरमभृ और सम्पूर्ण भूतोंके पितामह हैं। भगवन् ! अवश्य ही अब भी मेरी तपस्याका कोई अंश बचा हुआ है जो मैं आपसे कर्मफलके विषयमें प्रश्न करनेकी इच्छा रखता हूँ। कृपया यह बताइये कि किस उत्तम फलको पाकर जो अब अजर-अमर हो जाता है तथा किस फल का शान्ति के द्वारा उस फलकी प्राप्ति हो सकती है ?

भगवान् शुक्राचार्य और सप्तर्षियों ने उसमें सब जो उन्हीं

थीं कि वहाँ महामुनि सनत्कुमार उनके संगपको दूर करनेके लिये पधारे। शुक्राचार्य और दानवराज वृत्रने उनका पूजन किया और वे एक बहुमूल्य आसनपर विराजमान हुए।



जब वे आरामसे बंठ गये तो महर्षि शुक्रने कहा, 'भगवन् ! इन दानवराजको भगवान् विष्णुका श्रेष्ठ माहात्म्य सुनानेकी कृपा कीजिये।' यह सुनकर श्रीसनत्कुमारजी बोले, 'वैश्य-प्रवर ! भगवान् विष्णुका उत्तम माहात्म्य सुनिये। देखिये, यह सारा जगत् जहाँमें स्थित है। वे ही समस्त भूतोंकी रचना करते हैं, वे ही प्रलयकाल आनेपर उनका संहार करते हैं और वे ही कल्पान्तरके आरम्भमें उनकी पुनः सृष्टि करते हैं। समस्त भूत जहाँमें लीन होते हैं और उन्हींसे उत्पन्न होते हैं। उन्हें कोई शास्त्रज्ञानद्वारा अथवा तपस्या या यज्ञके द्वारा नहीं पा सकता, वे तो इन्द्रियोंके निग्रहसे ही प्राप्त हो सकते हैं। जो बाह्य और आभ्यन्तर कर्मोंमें प्रवृत्त होकर बुद्धिसे (निकामभावद्वारा) मनको शुद्ध करता है, वह अनन्त सुखको प्राप्त होता है। कर्मोंके द्वारा जीवकी शुद्धि संकड़ों जन्मोंमें हो पाती है। किन्तु कोई जीव महान् प्रयत्न करके एक ही जन्ममें शुद्ध हो जाता है। भगवान् नारायण आदि-अन्तसे रहित हैं और वे ही समस्त चराचर प्राणियोंकी रचना करते हैं। वे विरवका संहार करनेवाले, सबके नियामक और शत्रु विनाशक हैं। वे ही सत्य सत्त्वोंमें शत्रु और अध-

साय बंद न ठाने। अपनी निन्दाको सहन करे, किसीके प्रति अभिमान न करे, कोई क्रोध करे तो उससे प्रिय वाणी बोलें और मार-पीट करे तो स्वयं उसके हितकी ही बातें कहे। गर्वमें रहकर लोगोंके साथ अनुकूल-प्रतिकूल व्यवहार न करे तथा निक्षामवृत्तिको छोड़कर किसीके घर पहलेसे निमन्त्रित होकर न जाय। मूर्ख लोग धूल-मिट्टी डालकर तंग करें तो भी शान्त रहे, अपने मुंहसे कोई कठोर शब्द न निकाले। सर्वदा मृदुताका वर्तव्य करे, किसीके प्रति कठोरता न करे, निश्चिन्त रहे और बहुत बड़-बड़कर बातें न बनावे। जब पाकशालासे धूआं निकलना बंद हो जाय, मूसल अलग रख दिया जाय, चूल्हेकी आग ठंडी पड़ जाय, सब लोग भोजन कर चुकें और परोसन भी बंद हो जाय, उस समय पतिको भिक्षा मांगना चाहिये। उसे केवल अपनी प्राणयात्राके निर्वाह-मात्रका प्रयत्न करना चाहिये, भर-पेट भोजन मिल जाय—इसकी भी परवा न करे। यदि न मिले तो दुखी न हो और मिल जाय तो प्रसन्नता न माने। इन तुच्छ लौकिक लाभोंकी इच्छा न करे। जहाँ विशेष सत्कार होता हो वहाँ भिक्षा न करे। इसके सिवा सत्कारवश कोई और भी लाभ होता हो तो उससे बचता ही रहे। भिक्षामें मिले हुए अन्नके दोष या गुण कहकर उसकी निन्दा या स्तुति न करे। सोने और बेंठनेके लिये सदा एकान्तका ही आदर करे। सूनी कुटी, वृक्षके नीचे, वनमें अथवा गुफाके भीतर अज्ञातचर्यासे रहकर आत्मानुसंधानमें ही निमग्न रहे। अनुकूलता और प्रतिकूलतामें अविचल अविनाशो समस्वरूप ब्रह्माभावसे स्थित रहे तथा अपने कर्मोंसे पुण्य-पापरूप कर्मफलकी भावना न करे।

सर्वदा तृप्त और पूर्णतया संतुष्ट रहे, मुख और इन्द्रियोंको प्रसन्न रखे, भयको पास न फटकने दे, प्रणव आदिके जपमें तत्पर रहे तथा वैराग्यका आश्रय लेकर मौन रहे। देह और इन्द्रिय आदि भौतिक पदार्थोंमें अनात्मदृष्टिका अभ्यास रखे, जीवोंके जन्म-मरणपर विचार करता रहे, किसी वस्तुकी इच्छा न करे, सबपर समान भाव रखे, भ्रात आदि पकाये हुए तथा कन्द-मूल आदि बिना पकाये भोजनसे निर्वाह करे तथा आत्मलाभके लिये प्रशान्तचित्त, मिताहारी और जितेन्द्रिय रहे। तपस्वीको वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ—इनके वेगोंको वशमें रखना चाहिये। जहाँ निन्दा या प्रशंसा हो वहाँ दोनोंमें समान भाव रखकर उदासीन रहना चाहिये। संन्यासाश्रममें इस प्रकारका आचरण अत्यन्त पवित्र माना गया है।

संन्यासीको उदारचित्त, सब प्रकार जितेन्द्रिय, सब ओरसे असङ्ग, सौम्य, अनिकेत और समाहितचित्त होना चाहिये। उसे अपने पूर्वाश्रमके परिचित देशमें नहीं रहना चाहिये, गृहस्थ और वानप्रस्थोंसे संसर्ग नहीं रखना चाहिये, अपनी रचिको बिना प्रकट किये जो वस्तु मिले उसीको पानेकी इच्छा रखनी चाहिये तथा अमीष्ट वस्तुके मिलनेपर प्रसन्न नहीं होना चाहिये। यह संन्यासाश्रम ज्ञानियोंके लिये तो मोक्षस्वरूप है, किंतु अज्ञानियोंके लिये श्रमरूप ही है। हारीत मुनिने इस धर्मको विद्वानोंके लिये मोक्षका विमान ही बताया है। जो पुण्य सबको अभय-दान करके घरसे निकल जाता है, उसे तेजोमय लोकोंकी प्राप्ति होती है तथा वह अजर-अमर हो जाता है।

ब्राह्मी स्थितिका वर्णन करते हुए भीष्मजीका वृत्रासुरकी कथा सुनाना

राजा युधिष्ठिरने कहा—दादाजी! सभी लोग मुझे बड़ा भाग्यवान् कहते हैं, किंतु मेरी दृष्टिमें तो मुझसे बढ़कर बुरी कोई व्यक्ति नहीं है। वास्तवमें तो शरीर धारण करना ही महान् दुःख है। न जाने यह दुःखनाशक संन्यास हम कब ग्रहण करेंगे? हम न जाने कब यह राज-पाट छोड़कर वनमें जा सकेंगे?

भीष्मजी बोले—राजन! अनन्त कोई वस्तु नहीं है, समीचीन एक सीमा है। आवागमन भी प्रसिद्ध ही है; इस लोकमें अविचल वस्तु कोई नहीं है। तुम जंसा मानते हो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि ऐश्वर्यसे भी आसवित होनेपर ही बंध होता है। तुमलोग तो धर्मात्मा हो, इसलिये समय आनेपर (शमादिके) अभ्यासद्वारा मोक्ष प्राप्त कर लो।

जीव पुण्य-पापके कारण ही सुख-दुःख पर अधिकार नहीं कर पाता तथा उन सुख-दुःखसे उत्पन्न हुए तमोगुणद्वारा आच्छन्न हो जाता है। किंतु जिस समय यह ज्ञानद्वारा अज्ञानजनित अन्धकारको नष्ट कर देता है, उसी समय इसे सनातन परब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है। राजन्! इस विषयमें एक प्राचीन कथा है। उसमें यह बताया गया है कि ऐश्वर्यसे भ्रष्ट होकर वृत्रासुरने किस प्रकारका आचरण किया था। उसे तुम एकाग्र होकर सुनो।

वृत्रासुरकी देवताओंने परास्त कर दिया, उसका राज्य छिन गया तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा; तो भी केवल इस राग-द्वेषशून्य बुद्धिका आश्रय लेकर ही वह अपने शत्रुओंके बीचमें निश्चिन्त होकर रहता था। इस ऐश्वर्यहीन

लगा। इससे देवताओंकी बड़ा भोग हुआ और उन्होंने सब ओरसे वाण बरसाकर उसकी पत्थरोंकी चर्पा बंद कर दी; किंतु महाबली धृत्व बढ़ा मायावी भी था। उसने मायायुद्ध करके इन्द्रकी मोहमें डाल दिया। इससे इन्द्र मूर्च्छित हो गये। तब वसिष्ठजीने रथन्तर सामझारा उन्हें सचेत किया। वसिष्ठजी कहने लगे, 'देवराज! तुम सब देवताओंमें श्रेष्ठ, दैत्य और असुरोंका संहार करनेवाले और तिस्रोकीके बलसे सम्पन्न हो, फिर इस प्रकार विषादमें क्यों पड़े हो? देखो, तुम्हारे सामने ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्रमा, सूर्य और समस्त महर्षिगण खड़े हुए हैं; अतः तुम सावधान होकर शत्रुओंका संहार करो।'

भीष्मजी कहते हैं—जब महात्मा वसिष्ठजीने इस प्रकार इन्द्रको सावधान किया तो उनके शरीरमें बड़ा बल आ गया। उन्होंने बुद्धिपूर्वक महायोगसे सम्पन्न हो वृत्रकी सारी माया नष्ट कर दी। तब बृहस्पतिजी तथा दूसरे महर्षियोंने वृत्रामुरका पराक्रम देखकर महादेवजीके पास जा उसका नाश करनेके लिये प्रार्थना की। इसपर जगत्पति भगवान् शंकरके तेजने भीषण ज्वर होकर वृत्रामुरके शरीरमें प्रवेश किया और विरवकी रक्षा करनेवाले भगवान् विष्णु इन्द्रके वज्रमें विराजमान हुए। फिर महामति बृहस्पतिजी, परमतेजस्वी वसिष्ठजी तथा अन्य सब महर्षियोंने इन्द्रके पास जा एकचित्त होकर कहा, 'देवराज! वृत्रका वध कीजिये।' महादेवजी बोले, 'देवेश्वर! इस वृत्रामुरके बलप्राप्तिके लिये ही साठ हजार वर्ष तप किया था और तब इसे ब्रह्माजीने वर दिया था। उन्होंने इसे योगियोंको-सी शक्ति, अद्भुत मायावीपन, महान् पराक्रम और विचित्र तेज प्रदान किया है। तो, मेरा तेज तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करता है। इस समय यह (ज्वरके कारण) बहुत व्यर्थ हो रहा है, ऐसी अवस्थामें ही तुम वज्रसे इसे मार डालो।' इन्द्रने कहा, 'भगवन्! आपकी कृपासे मैं आपके सामने ही इस दुर्जय दैत्यको मार डालूंगा।'

राजन्! जब वृत्रामुरके शरीरमें ज्वरने प्रवेश किया तो देवता और ऋषियोंमें बड़ी हर्षध्वनि होने लगी। इधर तीव्र ज्वरने तपे हुए महादैत्य वृत्रने भी जमूहाई लेते हुए बड़ी अमानुषी गर्जना की। जमूहाई लेते समय ही इन्द्रने उत्तपर वज्र छोड़ा। उस कालाग्निके समान परमतेजस्वी वज्रने उसे तत्काल पृथ्वीपर गिरा दिया। बस, देवतालोग सब ओरसे हर्षनाद करने लगे। इस प्रकार वृत्रको मरा देखकर परमपरास्त्री इन्द्रने विष्णुतेजसे व्याप्त वज्रको लिये हुए स्वर्गमें प्रवेश किया।

कुक्षेष्ठ! इसी समय वृत्रके मृत देहमें महाभयावनी ब्रह्महत्या प्रकट हुई। यह देवराज इन्द्रको खोजने लगी।



देवराज स्वर्गकी ओर जा रहे थे। उन्हें पकड़कर ब्रह्महत्या उनके शरीरमें प्रवेश कर गयी। ब्रह्महत्याके डरसे धबकाकर इन्द्र कमलनालमें घुस गये और बहुत वर्षांतक वहाँ छिपे रहे। इन्द्रने उसे दूर करनेका बहुत प्रयत्न किया, किंतु यह उससे अपना पिण्ड न छुड़ा सके। तब ये पितामह ब्रह्माके पास गये और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्माजीने अपनी मधुर वाणीसे ब्रह्महत्याको शान्त किया और फिर उससे कहा, 'कल्याणि! यह देवराज है, तू इसे छोड़ दे। मेरा इतना प्रिय कर और वता मैं तेरा क्या काम करूँ, तू क्या चाहती है?'

ब्रह्महत्याने कहा—आप दिलोकके कर्ता और तीनों लोकोंमें सम्मानित हैं। जब आप प्रसन्न हों तो मैं अपनी सभी कामना पूर्ण हुई समझती हूँ। आपहीने तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये धर्मकी मर्यादा बाँधी है। यह नियम आपका ही बनाया हुआ है कि जो ब्राह्मणका वध करे उसे ब्रह्महत्या लगेगी; किंतु अब आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इन्द्रको छोड़ देती हूँ। आप मेरे लिये कोई दूसरा स्थान बता दीजिये।

ब्रह्माजीने ब्रह्महत्यासे कहा, 'ठोक है, मैं तेरे लिये स्थान निश्चित करता हूँ।' फिर उन्होंने उपायधारा ब्रह्महत्याको इन्द्रसे दूर किया। उस समय उनके स्मरण करते ही वहाँ अग्निदेव उपस्थित हुए और उनसे बोले, 'भगवन्! मुझे क्या आता है?' ब्रह्माजीने कहा, 'मैं इन्द्रको पापमुक्त करनेके

पसे भी रहते हैं। पृथ्वी उनके चरण हैं, स्वर्गलोक मस्तक दिशाओं भुजा हैं, आकाश कान हैं, सूर्य नेत्र हैं, चन्द्रमा मन महत्त्व बुद्धि है और जल मनोन्द्रिय है। सम्पूर्ण ग्रह उनकी श्रुतियों में स्थित हैं और नक्षत्रसमूह नेत्रों के तेजसे ढक हुए हैं। सत्त्व, रज, तम, तीनों गुण नारायणस्वरूप। सम्पूर्ण आश्रमों के और जपादि कर्मों के फल भी वे ही हैं या वे अव्यय परमात्मा ही कर्मत्यागरूप संन्यासके फल हैं। दमन उनके रोम हैं, प्रणव उनकी वाणी है तथा अनेकों ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेकों मुख हैं। ही हृदय में आश्रित धर्म, आत्मदर्शनरूप परम धर्म, तप और त-असत्-स्वरूप हैं; वे ही श्रुति, शास्त्र, यज्ञपात्र और सोलह त्रिज हैं तथा वे ही प्रजापति, विष्णु, अश्विनीकुमार, ऋ, मित्र, वरुण, यम और कुबेर हैं। जिस समय मनुष्यकी मनुष्यत्वात् खलती है उसी समय उनका साक्षात्कार होता है। मनुष्यकी उत्पत्तिसे लेकर प्रलयपर्यन्त एक कल्प होता है, से करोड़ों कल्पतक जीव स्थावर-जङ्गम योनियों में आते-जाते रहते हैं। यदि एक योजन चौड़ी, पाँच सौ योजन लंबी और एक कोस गहरी सहस्रों अगाध वावड़ियाँ हों और उनमेंसे आलके अग्रभागद्वारा एक दिनमें केवल एक ही बूँद जल निकाला जाय तो उन सबके सूखनेमें जितना समय लगेगा, उतना ही समय प्रजाके उत्पत्ति-प्रलयरूप एक कालमें लगता है। जीव ज्ञानके कारण ही अपने-अपने कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रतियोंको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नित्यप्रति शुद्ध चित्तसे भ्रमनुसंधान करते हुए वह उस शुद्धचिन्मात्रभावरूप परमर्गतिको प्राप्त कर लेता है और उसके द्वारा उस

अविनाशी पदको प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्म और अत्यन्त दुष्प्राप्य है। महावली दैत्यराज ! इस प्रकार मेने तुम्हें श्रीनारायणका प्रभाव सुना दिया।'

वृत्रासुरने कहा—भगवन् ! मुझे आपकी बात बहुत ठीक जान पड़ती है। अब मुझे किसी प्रकारका विषाद नहीं है। आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोकसे रहित हो गया हूँ। महर्षे ! यह अनन्त और महातेजस्वी विष्णुका ही प्रबल चक्र चल रहा है। इस सनातन स्थानसे ही समस्त सृष्टियोंकी प्रवृत्ति होती है। वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है और उसीमें यह सारा जगत् स्थित है।

राजा युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! सनत्कुमारजीने वृत्रासुरके आगे जिनका निरूपण किया था, वे भगवान् विष्णु ये श्रीकृष्णचन्द्र ही हैं न ?

भीष्मजी बोले—मूलमें स्थित जो भगवान् देवाधिदेव हैं, वे अपने स्वरूपमें स्थित हुए ही अपनी शक्तसे अनेकों प्रकारके पदार्थ रचते हैं। इन श्रीकृष्णको उनके अष्टमांशसे उत्पन्न हुए समझो; किंतु ये अपने अष्टमांशसे ही तीनों लोकोंको रच देते हैं। वे अविनाशी भगवान् महान् शक्तिमान् और सबके अधीश्वर हैं। कल्पका अन्त होनेपर वे जलपर शयन करते हैं। वे सनातन और अनन्त परमात्मा अपनी सत्तास्फूर्तिसे ही समस्त कार्य-कारणको पूर्ण कर देते हैं और सर्वदा एकरस होकर भी इस श्रीकृष्णरूपसे लोकोंमें विचर रहे हैं; किंतु इस स्वरूपमें भी वे उपाधिसे बँधे हुए नहीं हैं और अपनेहीमें स्थित इस अनेक प्रकारके सम्पूर्ण जगत्की रचना करते हैं।

इन्द्रद्वारा वृत्रासुरके वधका प्रसंग

राजा युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! अतुलित तेजस्वी वृत्रासुरकी धर्मनिष्ठा धन्य है तथा उसका अतुलित विज्ञान और विष्णुभक्ति भी धन्यवादके योग्य है। भरतश्रेष्ठ ! ऐसे प्रनायशास्त्री वृत्रको इन्द्रने किस प्रकार मारा था और उन दोनोंका युद्ध किस प्रकार हुआ था—यह प्रसंग सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है, कृपया उसका विस्तारसे वर्णन कीजिये।

भीष्मजी बोले—राजन् ! पुराने समयकी बात है, देवराज इन्द्र रथपर सवार हो देवताओंको साथ लिये युद्धासुरमें युद्ध करनेके लिये चले। उन्होंने अपने सामने पर्यन्तक समान विनाशकाय वृत्रको पड़ा देखा। वह पाँच सौ योजन ऊँचा और तीन सौ योजन मोटा था। वृत्रासुरका ऐसा

विशाल डीलडौल, जो त्रिलोकीके लिये भी दुर्जय था, देखकर देवतालोग डर गये और बहुत ही धवराने लगे। यह देखकर इन्द्रकी जाँचे भी मुन्न पड़ गयीं। आखिर युद्ध ठन ही गया और दोनों ओरसे रणवाद्योंका भीषण नाद होने लगा। देवराज इन्द्र और वृत्रासुरकी बड़ी कड़ी मुठभेड़ हुई तथा सारा भूमण्डल देवता और असुरोंकी सेनाओंसे एवं तलवार, पट्टिश, त्रिशूल, शक्ति, तोमर, मुद्गर, तरह-तरहकी, शिला, धनुष, अनेक प्रकारके दिव्य अस्त्र-शस्त्र और अग्निकी ज्वालाओंसे छा गया। उस अद्भुत युद्धको देखनेके लिये ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध और गन्धर्वलोग विमानोंपर चढ़कर वहाँ आ गये।

धर्मात्मा वृत्र आकाशमें चढ़कर इन्द्रपर पत्थर बरसाने

उनका आवाहन नहीं किया गया—यह सोचकर वे श्रेष्ठमें परमने और बोले 'सम्बन्धो ! जिनमें भगवान् शिवकी पूजा

शंकरसे बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। यदि यह सत्य है तो इसके इस विघात यत्ना विध्वंस हो जायगा।'

इसने कहा—भयं ! देखिये, विधिपूर्वक मन्त्रसे पवित्र की हुई यह हवि सुवर्णके पात्रमें रखी है, इसे मैं भगवान् विष्णुको अर्पण करूँगा, जिनकी कृती भी समता नहीं है। वे ही प्रभु (समर्थ), विष्णु (धारक) और आहवनीय (यज्ञ-भाग समर्पण करने योग्य) हैं।

(दूसरी ओर संवातपर) पार्वती देवी बहुत उदात्त होकर भगवान् शंकरसे कह रही थी—'आह ! मैं कौन-सा दान, धन या तप कहूँ, जिसके प्रभावसे मेरे पतिदेवको यत्ना आधा या तिहाई भाग अर्पण प्राप्त हो।'

सोममें भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नीकी बात सुनकर भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर कहा—'देवि ! मैं सम्पूर्ण धनोक्त ईश्वर हूँ। मेरे विषयमें कौन बात कहनी चाहिये ? यह तुम नहीं जानती। जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, जो असाधु पुत्र्य हैं, उन्हें मेरे स्वरूपका ज्ञान नहीं होता। इस समय इन्द्र आदि देवताओंके साथ ही तीनों तीर्थ मोट्टमें पड़े हुए हैं। यज्ञमें प्रस्तीतालोग मेरी ही स्तुति करते हैं। सामयान करनेवाले ब्राह्मण रमन्तर सामके रूपमें मेरी ही महिमाका गायन करते हैं। वेरदेता पुत्र्य मेरा ही यजन करते और श्वाँवबलोग मुझे ही यज्ञमें भाग देते हैं। देवे-शक्ति ! यह सब मैं अपनी प्रजाताके लिये नहीं कहता। देखो, जिसके कारण तुम्हें दुःख हुआ है, उस यज्ञकी गन्ध करनेके लिये एक घोर पुष्टकी उत्पन्न कर रहा हूँ।'

प्रान्ति भी अधिक घायी जमाते ऐसी बात कहकर भगवान् महेरवने अपने मुखसे एक भस्कर भूत प्रकट किया, जिसको देखते ही रोंपटे लखड़े हो जाते थे। फिर उन्होंने उठे आशा की 'देसका यज्ञ गन्ध कर दो।' उस लहके पुत्र्य पराक्रमी पुराणे पार्वतीजीका शेष शान्त करनेके लिये खल-ही-खलमें प्रवान्तिके यत्ना विश्वंश कर डाला। उस समय पवानीके श्रेष्ठसे प्रकट हुई भस्कर आकारवाली महाकालीने भी तैवर्कसहित उसका साथ दिया था।

उस पुष्टका नाम था वीरभद्र। उसका शीर्ष, बल और रूप भगवान् शंकरके ही समान था। श्रेष्ठका तो वह मूर्तिमान् स्वरूप ही था। उसके बल, शीर्ष और पराक्रमकी कोई सीमा नहीं थी। जब उसे यज्ञ-विश्वंश करनेको आशा मिली, उस समय उसने सबसे पहले भगवान् शंकरको प्रणाम किया, उसके बाद अपने शरीरके रोम-रोमसे 'रोम्य' नामक गण प्रकट किये, जो छत्रके समान भस्कर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे महाकाय वीरगण संकड़ों और हजायोंकी कई टोतियाँ बनाकर बड़ी तेजीके साथ यज्ञ-विश्वंश करनेके



नहीं होती वह न यज्ञ है, न धर्म। (इसलिये इस यज्ञको भी यज्ञ नहीं कहा जा सकता।) इसमें बड़ा भस्कर विनाश होनेवाला है; किन्तु मोट्टका कितनी दिलीपनी नहीं देता।' यह कहकर महायोगी दधीचिने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें भगवान् शंकर और बरदायिनी पार्वती देवीका दर्शन हुआ; उनके पास ही देवशि नारदजी भी दिलायी पड़े। इससे उनकी बहुत संतोष हुआ।

तत्परवान् दधीचिने यह विचार किया कि ये सब लोग एकात्म हो गये हैं, इसलिये इन्होंने महादेवजीको निमन्त्रण नहीं दिया है—यह बात ध्यानमें आते ही वे यज्ञशालासे अलग हो गये और दूर जाकर कहने लगे—'जो पूजनीय पुष्टकी पूजा न करके अपुष्टका पूजन करता है, उसे नर-हत्याके समान पाप लगता है। मैंने आबतक कभी मूठ नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहूँगा। इतने देवतासत्पा श्रद्धियोंके बीच मैं सच्ची बात बत रहा हूँ, भगवान् शंकर सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले, समस्त जीवोंके रक्षक तथा सबके स्वामी हैं। तुम सब लोग देखना, वे इस यज्ञमें अप्रमोस्ताके रूपमें उपस्थित होंगे। मैं जानता हूँ, सबकी सत्तासे ही उन्हें आनन्दित नहीं किया गया है, किन्तु मेरी सन्नममें भगवान्

लिये इस ब्रह्महत्याके कई विभाग करता हूँ, उनमेंसे एक चतुर्थांश तुम ग्रहण करो।' अग्निने कहा, 'प्रभो! ठीक है, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है; किंतु मुझसे इस पापकी निवृत्ति कैसे होगी—इतना मैं जानना चाहता हूँ।' ब्रह्माजी बोले, 'अग्ने! यदि किसी स्थानपर प्रज्वलित अवस्थामें तुम्हारे पास आकर कोई पुरुष अज्ञानवश वीज, ओषधि या रत्नोंसे तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो तुरंत ही तुम्हारी ब्रह्महत्या उसमें प्रवेश कर जायगी।' ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर अग्निने उनकी बात मान ली और ब्रह्महत्याके एक चौथाई भागने उसमें प्रवेश किया।

इसके पश्चात् पितामहने वृक्ष, तृण और ओषधियोंको घुलाकर उनसे भी वही बात कही। इसपर वे कहने लगे, 'त्रिलोकनाथ! आपकी आज्ञासे हम ब्रह्महत्याके चतुर्थांशको ग्रहण करेंगे, किंतु आप इससे हमारे छुटकारेका उपाय भी तो सोचिये।' ब्रह्माजी बोले, 'जो पुरुष पुण्यतिथियोंपर वृक्षादिको काटेगा यह उसीके पोछे लग जायगी।' तब वृक्षादिने उनकी बात स्वीकार कर ली और उनका यथावत् पूजनकर अपने-अपने स्थानको चले गये।

फिर ब्रह्माजीने अप्सराओंको बुलाकर उनसे मधुर वाणीमें कहा, 'सुन्दरियो! यह ब्रह्महत्या इन्द्रके पास आयी है, सो मेरे कहनेसे इसका चतुर्थांश तुम ग्रहण कर लो।' अप्सराओंने कहा, 'देवेश्वर! आपकी आज्ञासे हम इसे ग्रहण करनेको तैयार हैं; किंतु इससे हमारे छुटकारेके समयका भी विचार करनेकी कृपा करें।' ब्रह्माजी बोले, 'तुम निश्चित

रहो, जो पुरुष रजस्वला स्त्रीके साथ सभागम करेगा, उसीके पास ग्रह चली जायगी।' तब सब अप्सराएँ ब्रह्माजीकी आज्ञा शिरोधार्य कर अपने स्थानोंमें जाकर विहार करने लगीं।

इसके बाद लोकत्रिधाता ब्रह्माने जलके लिये संकल्प किया। तुरंत ही जलदेवता उपस्थित हुए और ब्रह्माजीको प्रणाम करके कहने लगे, 'प्रभो! हम उपस्थित हैं, कहिये, क्या आज्ञा है?' ब्रह्माने कहा, 'देवी, यह ब्रह्महत्या वृक्षके शरीरसे निकलकर इन्द्रके पास आयी है। सो मेरी आज्ञासे इसका एक चौथाई भाग तुम ग्रहण करो।' जलने कहा, 'लोकेश्वर! आप जैसा कहते हैं हमें स्वीकार है; किंतु इससे हमारे निस्तारका समय भी तो निश्चित कर दीजिये।' ब्रह्माजी बोले, 'जो मनुष्य अपनी बुद्धिकी मन्दतासे जलमें यूक-खखार या मल-मूत्र डालेगा तुम्हें छोड़कर यह उसीपर चली जायगी और उसीमें रहने लगेगी।'

भीष्मजी कहते हैं—राजन्! इस प्रकार इन्द्रको छोड़कर ब्रह्महत्या ब्रह्माजीके व्रताये हुए भिन्न-भिन्न स्थानोंमें चली गयी। इसके बाद ब्रह्माजीकी आज्ञासे इन्द्रने अश्वमेध यज्ञ किया। महाराज! इस तरह देवराज शक्रने अपनी सूक्ष्म बुद्धिसे काम लेकर उपायपूर्वक वृत्तासुरका वध किया था। जो लोग पुण्यतिथियोंपर ब्राह्मणोंकी सभामें इस दिव्य कथाको सुनावेंगे उन्हें किसी प्रकारका पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें वृत्तासुरके प्रसंगसे यह इन्द्रका अद्भुत चरित्र सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?

दक्ष-यज्ञ-विध्वंस

जनमेजयने पूछा—वैशम्पायनजी! वैवस्वत मन्वन्तर-में प्रचेताके पुत्र प्रजापति दक्षका अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार नष्ट हुआ था? सुना है पार्वती देवीको दुःखित जानकर भगवान् शंकर दक्षपर क्रुपित हो गये थे। फिर उन्हें प्रसन्न करके दक्षने किस तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया? मैं इस प्रसंगको जानना चाहता हूँ; आप ठीक-ठीक व्रतानेकी कृपा करें।

वैशम्पायनजीने कहा—राजन्! पुराने समयकी बात है, हिमालयके पास गङ्गानद्वारमें, जहाँ ऋषि और सिद्धोंका निवास था, प्रजापति दक्षने अपना यज्ञ आरम्भ किया। नाना प्रकारके वृक्ष और तताएँ उस स्थानकी शोभा बढ़ा रही थीं। धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ दक्ष वहाँ ऋषियोंकी मण्डलीसे घिरे हुए बंठे थे। उस समय पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग-

लोकमें रहनेवाले मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर उनकी सेवामें उपस्थित हुए। दानव, पिशाच, सर्प, राक्षस, हाहा, हूँहूँ, तुम्बुरु, विश्वासु तथा विश्वसेन आदि गन्धर्व, सम्पूर्ण अप्सराएँ, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य और मरुद्गणोंके साथ इन्द्रादि देवता यज्ञमें भाग लेनेके लिये पधारे थे। सोमपा-आज्यपा आदि पितर, ऋषि तथा ब्रह्माजीका भी शुभागमन हुआ था। इन सबके अतिरिक्त जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज चारों प्रकारके जीव वहाँ आमन्त्रित हुए थे। देवतालोग अपनी स्त्रियोंके साथ विमानपर बैठकर आते समय प्रज्वलित अग्निके समान शोभा पा रहे थे।

महामुनि दधीचि भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने देखा देवता और दानव आदिका समाज तो खूब जुटा हुआ है, परंतु भगवान् शंकर नहीं दिखायी देते; जान पड़ता है.

दशप्रजापतिका भगवान् शिवकी स्तुति करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर, दशप्रजापतिने भगवान् शंकरके सामने दोनों घुटने जमीनपर टेक दिये और अनेक नामोंके द्वारा उनकी स्तुति की।

मुधिष्ठिरने पूछा—तात ! जिन नामोंसे दशने भगवान् शिवका स्तवन किया था, उन्हें सुननेकी इच्छा हो रही है; कृपया सुनाइये।

भोष्मजीने कहा—मुधिष्ठिर ! अद्भुत पराश्रम करनेवाले देवाधिदेव शिवके प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी तरहके नाम मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो।

(दक्ष बोले)—देवदेवस्वर ! आपको नमस्कार है। आप देववंशी दानवोंकी सेनाके संहारक और देवराज इन्द्रकी भी शक्तिको स्तम्भित करनेवाले हैं। देवता और दानव सबने आपकी पूजा की है। आप सहस्रों नैत्रोंसे युक्त होनेके कारण सहस्राक्ष हैं। आपकी इन्द्रियाँ सबसे विलक्षण अर्थात् परोक्ष विषयकी भी ग्रहण करनेवाली हैं, इसलिये आपकी विरूपास कहते हैं। आप त्रिनेत्रधारी हैं, इस कारण व्यस कहलाते हैं। यक्षराज कुबेरके भी आप प्रिय (इष्टदेव) हैं। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर आँख, मुँह और मस्तक हैं तथा सब ओर कान हैं। संसारमें जो कुछ है, सबकी आप व्याप्त करके स्थित हैं। शंभुकर्ण, महाकर्ण, कुन्मकर्ण, अर्णवालप, गजेन्द्रकर्ण, गोकर्ण और पाणिकर्ण—ये सात पाप्यंद आपके ही स्वरूप हैं—इन सबके रूपमें आपको नमस्कार है। आपके संकड़ों उदर, संकड़ों आवतं और संकड़ों जिह्वाएँ होनेके कारण आप शतोदर, शतावतं और शतजिह्व नामसे प्रसिद्ध हैं; आपकी प्रणाम है। गायत्रीका जप करनेवाले आपकी ही महिमाका गान करते हैं और सूर्योपासक सूर्यके रूपमें आपकी ही आराधना करते हैं। मुनि आपकी ब्रह्मा मानते हैं और याज्ञिक इन्द्र। जानी महात्मा आपको संसारसे परे तथा आकाशके समान व्यापक समझते हैं। समुद्र और आकाशके समान महत्स्वरूप धारण करनेवाले महेश्वर ! जैसे गोशालामें गीएँ निवास करती हैं, उसी प्रकार आपकी भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा एवं यज्ञमानरूप आठ मूर्तियोंमें सम्पूर्ण देवताओंका वास है। मैं आपके शरीरमें चन्द्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पतिको भी देख रहा हूँ। आप ही कारण, कार्य, प्रयत्न और करणरूप हैं। सत् और असत् पदार्थ आपहीसे उत्पन्न होते और आपहीमें सोन हो जाते हैं।

आप सबके उद्भव (जन्म) का कारण होनेसे भव,

संहार करनेके कारण शर्व, व अर्थात् पापको दूर करनेसे रुद्र, वरदाता होनेसे वरद तथा पशुओं (जीवों) के पालक होनेके कारण पशुपति कहलाते हैं। आपने अग्धकासुरका वध किया है, इससे आपको अग्धकघाती कहते हैं; आपको बारंबार नमस्कार है। आप तीन जटा और तीन मस्तक धारण करनेवाले हैं। आपके हाथमें त्रिशूल शोभा पा रहा है। आप व्यम्बक—त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुरविनाशक हैं; आपकी प्रणाम है। क्रोधवश प्रचण्ड रूप धारण करनेसे आपका नाम चण्ड है। आपके उदरमें सम्पूर्ण जगत् उसी भाँति स्थित है जैसे कुण्डमें जल, इसीलिये आपको कुण्ड कहते हैं। आप ब्रह्माण्डस्वरूप, ब्रह्माण्डको धारण करनेवाले तथा दण्डधारी हैं। समकर्ण अर्थात् सबकी समानभावसे सुननेवाले हैं। दण्ड धारण करके माघ मुड़ाये रहनेवाले संन्यासी भी आपके ही स्वरूप हैं; आपकी प्रणाम है। बड़ी-बड़ी डाढ़ें और ऊपरकी ओर उठे हुए केश धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। आप ही विशुद्ध ब्रह्म हैं और आप ही जगत्के हृदयमें विस्तृत हैं। रजोगुणको अपनानेपर विलोहित तथा तमोगुणका आश्रय लेनेपर आप धूम्र कहलाते हैं। आपकी धीबामें नीले रंगका चिह्न है, इसलिये आपको नीलध्रौव कहते हैं; हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है, आप नामा प्रकारके रूप धारण करते हैं और परम कल्याणमय शिवस्वरूप हैं। आप ही सूर्यमण्डल और उसमें प्रकाशित होनेवाले सूर्य हैं। आपकी ध्वजा और पताकापर सूर्यका चिह्न है; आपको नमस्कार है। प्रमथगणोंके अधीश्वर भगवान् शिव ! आपको प्रणाम है। आपके कंधे वृषभके कंधोंके समान भरे हुए हैं। आप सदा पितृक धनुष धारण किये रहते हैं। शत्रुओंका दमन करनेवाले और दण्डस्वरूप हैं। किरात येपमें विचरते समय आप भोजपत्र और वल्कल-वस्त्र धारण करते हैं। हिरण्य (सुवर्ण) को उत्पन्न करनेके कारण आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यके कवच और मुकुट धारण करनेसे आप हिरण्यकवच तथा हिरण्यचूडके नामसे प्रसिद्ध हैं। हिरण्यके आप अधिपति हैं; आपको सादर नमस्कार है।

जिनकी स्तुति हो चुकी है, हो रही है और जो स्तुति करने योग्य हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप सत्य, सर्वभक्षी और सब भूतोंके अन्तरात्मा हैं; आपको सादर प्रणाम है। आप ही होता हैं और आप ही मन्त्र। आपकी ध्वजा और पताकाका रंग श्वेत है; आपको नमस्कार है।



लिये दूट पड़े। उस समय उनकी किलकारियोंसे आसमान गूँजने लगा। उनके महान् कोलाहल सुनकर देवता थर्रा उठे। पर्वतोंके टुकड़े-टुकड़े हो गये। धरती डोलने लगी और समुद्रोंमें तूफान आ गया। इतना ही नहीं, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र तथा चन्द्रमा भी फीके पड़ गये। चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सब छिप गये, कोई दिखायी नहीं देता था।

दशसे अपमान पाकर कुपित हुए भूतोंने सबसे पहले यज्ञशालामें आग लगा दी। कुछ मार-पीट करने लगे। कुछ लोगोंने धूप उगाड़ने आरम्भ किये। बहुतेरे यज्ञकी सामग्रीको नष्ट करने और रौंदने लगे। कोई दीड़ लगाते, कोई वर्तन फोड़ते और कोई-कोई आभूषणोंको तोड़कर फेंक रहे थे। सारा सामान इधर-उधर बिखर गया। उस यज्ञ-भूमिमें जहाँ-तहाँ दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य-भोज्यकी ढेरी पर्वतोंकी भाँति दिखायी देती थी। दूधकी नदियाँ बहती थीं। घी और राँौर मानो उस नदीकी कीचड़ थे। खाँड़ और शककर

वालूकी तरह बिछे हुए थे। इनके सिवा और भी बहुतसे खाने-पीने योग्य पदार्थोंका संग्रह किया गया था। उन सबको कालाग्निके समान भयंकर उद्वरण अपने तरह-तरहके मुखों-द्वारा खाते, पीते, लूटते और फेंकते थे। देवताओंको डराते और उद्विग्न करते हुए वे भाँति-भाँतिके खिलवाड़ करते थे।

इस प्रकार भयानक कर्म करनेवाले वीरभद्रने उस यज्ञको सब ओरसे नष्ट कर डाला। तत्पश्चात् समस्त प्राणियोंको डरानेवाली भयंकर गर्जना की। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं तथा प्रजापति दक्षने हाथ जोड़कर पूछा 'आप कौन हैं?' वीरभद्र बोला 'हम दोनों शिव और पार्वती नहीं हैं। मेरा नाम है वीरभद्र। मैं भगवान् रुद्रके कोपसे प्रकट हुआ हूँ। तथा यह भद्रकाली है; भगवती उमाके क्रोधसे इसका प्रादुर्भाव हुआ है। देवाधिदेव शंकरकी आज्ञासे हम दोनों इस यज्ञका नाश करनेके लिये ही यहाँ आये थे। विप्रवर! तुम उमानाथ भगवान् शिवकी शरण लो; क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरोंके वरदानसे अच्छा है।'

वीरभद्रकी बात सुनकर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ दक्षने भगवान् शिवके उद्देश्यसे प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की—'जो सम्पूर्ण जगत्के शासक, पालक, महान् आत्मा, नित्य, अविकारी एवं सनातन देवता हैं, उन महादेवजीकी आज मैं शरण लेता हूँ।'

दक्षके इतना कहते ही हजारों सूर्योंके समान तेज धारण किये देवदेवेश्वर भगवान् शिव सहसा अग्निकुण्डसे प्रकट हुए और हँसकर बोले—'ब्रह्मन्! ब्रताओ, मैं तुम्हारा कौनसा प्रिय कार्य करूँ?' उस समय देवगुह बृहस्पतिने वेदका सखाध्याय पढ़कर भगवान्की स्तुति की। तत्पश्चात् प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहाते हुए भय और शङ्कासे सहमे हुए-से बोले—'भगवन्! यदि आप प्रसन्न हों और मुझे अपना प्रिय भक्त एवं दयाका पात्र समझकर वर देना चाहते हों तो मैंने बहुत दिनोंसे परिश्रम करके जो यज्ञकी सामग्री जुटायी थी, उसमेंसे बहुत कुछ आपके गणों-द्वारा खा-पीकर नष्ट-भ्रष्ट किया जा चुका है; वह सब व्यर्थ न जाय, उसके द्वारा इस यज्ञकी पूर्ति हो जाय—यही कृपा कीजिये।'

भगवान्ने 'तथास्तु' कहकर दक्षकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

दक्षप्रजापतिका भगवान् शिवकी स्तुति करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर, दक्षप्रजापतिने भगवान् शंकरके सामने दोनों धुटने जमीनपर टोक दिये और अनेक नामोंके द्वारा उनकी स्तुति की।

युधिष्ठिरने पूछा—सात! जिन नामोंसे दक्षने भगवान् शिवका स्तवन किया था, उन्हें सुनेकी इच्छा हो रही है; कृपया सुनाइये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! अद्भुत पराक्रम करनेवाले देवाधिदेव शिवके प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी तरहके नाम मैं सुन्हें सुना रहा हूँ, सुनो।

(दक्ष बोले)—देवदेवेश्वर! आपको नमस्कार है। आप देववरी दानवोंकी सेनाके संहारक और देवराज इन्द्रकी भी शक्तिको स्तम्भित करनेवाले हैं। देवता और दानव सबने आपकी पूजा की है। आप सहस्रों नेत्रोंसे युक्त होनेके कारण सहस्राक्ष हैं। आपकी इन्द्रियों सबसे विलक्षण अर्थात् परोक्ष विषयको भी ग्रहण करनेवाले हैं, इसलिये आपको विरूपाक्ष कहते हैं। आप त्रिनेत्रधारी हैं, इस कारण व्यस कहलाते हैं। यक्षराज कुबेरके भी आप प्रिय (इष्टदेव) हैं। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर आँख, मूँह और मस्तक हैं तथा सब ओर कान हैं। संसारमें जो कुछ है, सबको आप ध्याप्त करके स्थित हैं। शंक्रुर्कण, महाकर्ण, कुम्भकर्ण, अर्णवालस्य, गणेशकर्ण, गोकर्ण और पाणिकर्ण—ये सात पार्थद आपके ही स्वरूप हैं—इन सबके रूपमें आपको नमस्कार है। आपके सैकड़ों उदर, सैकड़ों आवतं और सैकड़ों जिह्वाएँ होनेके कारण आप शतोदर, शतावतं और शतजिह्व नामसे प्रसिद्ध हैं; आपको प्रणाम है। गायत्रीका जप करनेवाले आपकी ही महिमाका गान करते हैं और सूर्योपासक सूर्यके रूपमें आपकी ही आराधना करते हैं। मुनि आपको ब्रह्मा मानते हैं और याज्ञिक इन्द्र। जानी महात्मा आपको संसारसे परे तथा आकाशके समान व्यापक समझते हैं। समुद्र और आकाशके समान महत्स्वरूप धारण करनेवाले महेश्वर! जैसे गोशालामें गोएँ निवास करती हैं, उसी प्रकार आपकी भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा एवं यजमानरूप आठ मूर्तियोंमें सम्पूर्ण देवताओंका वास है। मैं आपके शरीरमें चन्द्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पतिको भी देख रहा हूँ। आप ही कारण, कार्य, प्रयत्न और करणरूप हैं। सत् और असत् पदार्थ आपहीसे उत्पन्न होते और आपहीमें लीन हो जाते हैं।

आप सबके उद्भव (जन्म) का कारण होनेसे भव,

संहार करनेके कारण शर्व, स अर्थात् पापको दूर करनेसे रुद्र, वरदाता होनेसे वरद तथा पशुओं (जीवों) के पालक होनेके कारण पशुपति कहलाते हैं। आपने अन्धकासुरका यध किया है, इससे आपको अन्धकघाती कहते हैं; आपको बारंबार नमस्कार है। आप तीन जटा और तीन मस्तक धारण करनेवाले हैं। आपके हाथमें त्रिशूल शोभा पा रहा है। आप व्यम्बक—त्रिनेत्रधारी तथा विष्णुरविनासाक हैं; आपको प्रणाम है। क्रोधवशा प्रचण्ड रूप धारण करनेसे आपका नाम चण्ड है। आपके उदरमें सम्पूर्ण जगत् उसी भाँति स्थित है जैसे कुण्डमें जल, इसीलिये आपको कुण्ड कहते हैं। आप ब्रह्माण्डस्वरूप, ब्रह्माण्डको धारण करनेवाले तथा दण्डधारी हैं। समर्कण अर्थात् सबकी समानभावसे मुनेवाले हैं। दण्ड धारण करके माय भुङ्गये रहनेवाले संन्यासी भी आपके ही स्वरूप हैं; आपको प्रणाम है। बड़ी-बड़ी डाढ़ें और ऊपरकी ओर उठे हुए केश धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। आप ही विशुद्ध ब्रह्म हैं और आप ही जगत्के रूपमें विस्तृत हैं। रजोगुणको अवनानेपर विलोहित तथा तमोगुणका आश्रय लेनेपर आप धूम्र कहलाते हैं। आपकी प्रीवामें नीले रंगका चिह्न है, इसलिये आपको नीलप्रीव कहते हैं; हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है, आप नाना प्रकारके रूप धारण करते हैं और परम कल्याणमय शिवस्वरूप हैं। आप ही सूर्यमण्डल और उसमें प्रकाशित होनेवाले सूर्य हैं। आपकी ध्वजा और पताकापर सूर्यका चिह्न है; आपको नमस्कार है। प्रमयगणोंके अधीश्वर भगवान् शिव! आपको प्रणाम है। आपके कंधे यृद्धके कंधोंके समान भरे हुए हैं। आप सदा पिनाक धनुष धारण किये रहते हैं। शत्रुओंका वधन करनेवाले और दण्डस्वरूप हैं। किरात वेषमें विचरते समय आप भोजपत्र और बलकल-यस्त्र धारण करते हैं। हिरण्य (सुवर्ण) को उत्पन्न करनेके कारण आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यके कवच और मूकुट धारण करनेसे आप हिरण्यकवच तथा हिरण्यचूड़के नामसे प्रसिद्ध हैं। हिरण्यके आप अधिपति हैं; आपको सादर नमस्कार है।

जिनकी स्तुति हो चुकी है, हो रही है और जो स्तुति करने योग्य हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप सर्व, सर्वमयी और सब भूतके अन्तरात्मा हैं; आपको सादर प्रणाम है। आप ही होता हैं और आप ही मन्त्र। आपकी ध्वजा और पताकाका रंग श्वेत है; आपको नमस्कार है।

आपकी नामिते सम्पूर्ण जगत्का आविर्भाव होता है। आप संसार-त्रकके नामित्यान (केन्द्र) और आवरणके भी आवरण हैं; आपको हमारा प्रणाम है। आपकी नासिका पतली है, इसलिये आप कृशानात कहलाते हैं। आपके अवयव कृश होनेसे आपको कृशाङ्ग तथा शरीर दुबला होनेसे कृश कहते हैं। आप आनन्दमूर्ति, अति प्रसन्न रहनेवाले एवं किल-किल शब्दस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियोंके भीतर शयन करनेवाले अन्तर्गामी पुरुष हैं, प्रलयकालमें योगनिद्राका आश्रय लेकर सोनेवाले और सृष्टिके प्रारम्भ कालमें फल्पागतनिद्रासे जागनेवाले हैं। आप ब्रह्मरूपसे सर्वत्र स्थित और कालरूपसे सदा दौड़नेवाले हैं। मूँड़ मुड़ाये हुए संन्यासी और जटाधारी तपस्वी भी आपके ही स्वरूप हैं; आपको प्रणाम है। आपका ताण्डवनृत्य बराबर चलता रहता है। आप मुँहसे शृङ्गी आदि बाजे बजानेमें निपुण हैं, कमलपुष्पकी भेंट लेनेको उत्सुक रहते हैं और गाने-बजानेमें मस्त रहा करते हैं; आपको नमस्कार है। आप अवस्थामें सबसे ज्येष्ठ और गुणोंमें भी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने ही बलाभिमानी इन्द्रका मान-मर्दन किया था। आप कालके भी नियन्ता तथा सर्वशक्तिमान् हैं। महाप्रलय और अवान्तर प्रलय आपके ही स्वरूप हैं; आपको मेरा प्रणाम है। नाथ ! आपका अट्टहास दुन्दुभिकी भाँति भयंकर है। आप भीषण घातोंको धारण करनेवाले हैं। दस भुजाओंसे सुरभीत होनेवाले और उग्र भूतिधारी आपको हमारा नमस्कार है। आप हाथमें कपाल लिये रहते हैं, चिताका भस्म आपको बहुत प्यारा है। भगवान् भीम ! आप भयंकर होते हुए भी निर्भय हैं तथा शम आदि-उत्तम व्रतोंका पालन करते रहते हैं; आपको हमारा प्रणाम है। आप वीणाके प्रेमी तथा वृष (घृष्टिकर्ता), बृष्य (धर्मकी वृद्धि करनेवाले), गोवृष (नन्दी) और वृष (धर्म) आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। कष्टडूँड (नित्य गतिशील), दण्ड (शासक) और पचपच (सम्पूर्ण भूतोंको पकानेवाला) भी आपहीके नाम हैं; आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ, वरस्वरूप और वरदाता हैं, उत्तम मात्स्य, गन्ध और वस्त्र धारण करते हैं तथा भक्तको इच्छानुसार और उत्तरे भी अधिक वरदान देते हैं; आपको प्रणाम है।

रागी और विरागी दोनों जिसके स्वरूप हैं, जो ध्यान-परायण, उदासपनी माता धारण करनेवाले, कारणरूपसे सबमें प्याप्त और कार्यरूपसे पुण्य-पुण्यकृ दित्वायी देनेवाले हैं तथा जो सम्पूर्ण जगत्को छाया और घृष प्रदान करते हैं, उन भगवान् शंकरको नमस्कार है। अधोर, घोर और घोरसे भी घोरतर रूप धारण करनेवाले तथा शिव, शान्त एवं अत्यन्त

शान्त स्वरूपमें दर्शन देनेवाले भगवान् शिवको प्रणाम है। एक पाद, अनेक नेत्र और एक मस्तकवाले आपको प्रणाम है। भक्तोंकी वी हुई छोटी-से-छोटी वस्तुके लिये भी लालायित रहनेवाले और उत्तरे बदलेमें उन्हें अपार धनराशि बाँट देनेकी रचि रखनेवाले आप भगवान् रुद्रको नमस्कार है। जो इस विरवका निर्माण करनेवाले कारीगर, गौरवर्ण और सदा शान्तरूपसे रहनेवाले हैं, जिनकी घंटाध्वनि शब्दोंको भयभीत कर देती है तथा जो स्वयं ही घंटागाद और अनाहत ध्वनिके रूपमें श्रवणगोचर होते हैं, उन महेश्वरको प्रणाम है। जिनकी एक ही घंटी हजारों मनुष्योंद्वारा एक साथ बजायी जानेवाली घंटियोंके बराबर आवाज करती है, जिन्हें घंटाकी माला प्रिय है, जिनका प्राण ही घंटाके समान ध्वनि करता है, जो गन्ध और कोलाहलरूप हैं, उन भगवान् शिवको नमस्कार है। जो 'हूँ' कहकर क्रोध और आन्तरिक शान्ति प्रकट करते हैं, परब्रह्मके चिन्तनमें तत्पर रहते हैं तथा शान्ति एवं ब्रह्मचिन्तनको प्रिय मानते हैं; पदोंपर और वृक्षोंके नीचे जिनका निवास है और जो सदा शान्त होनेका ही आदेश दिया करते हैं, उन महादेवजीको प्रणाम है। जो जगत्का तरण-तारण करनेवाले, यज्ञ, यजमान, हुत (हवन) और प्रहुत (अग्नि) रूप हैं, उन शंकरजीको नमस्कार है। जो यज्ञके निर्वाहक, दमनशील, तपस्वी और ताप देनेवाले हैं; नदी, नदीके किनारे तथा नदीपति समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप हैं, उन भगवान् शिवको प्रणाम है। अन्नदाता, अन्नपति और अन्नपोक्तारूप महेश्वरको नमस्कार है। जिनके सहस्रों मस्तक, सहस्रों चरण, सहस्रों शूल तथा सहस्रों नेत्र हैं; जो बालसूर्यकी भाँति देदीप्यमान और बालक-रूप धारण करनेवाले हैं, उन शंकरजीको प्रणाम है। अपने बाल अनुचरोंके रक्षक, बालकोंके साथ खेल करनेवाले, बृद्ध, लुब्ध, क्षुब्ध और क्षोभमें डालनेवाले आपको प्रणाम है। आपके केश गङ्गाकी तरङ्गोंसे अङ्कित तथा मुञ्जके समान हैं, आप ब्राह्मणोंके छः कर्म—अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रहले संतुष्ट रहते तथा स्वयं (अध्ययन, यजन और दानरूप) तीन कर्मोंका अनुष्ठान किया करते हैं; आपको मेरा नमस्कार है। आप वर्ण और आश्रमोंके भिन्न-भिन्न कर्मोंका विधिवत् विभाग करनेवाले, स्तवन करने योग्य, घोषस्वरूप तथा कलकल ध्वनि हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंगके हैं, आप प्राणवायुकी जीतनेवाले, दण्डरूपसे प्रजाको नियममें रखनेवाले, ब्रह्माण्डरूपी घटकी फोड़नेवाले और कृश शरीर धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देनेके विषयमें आपकी कीर्तिकला सर्वत्र प्रसिद्ध है।

आप सांख्यस्वरूप, सांख्ययोगियोंमें प्रधान तथा सांख्य शास्त्रको प्रवृत्त करनेवाले हैं; आपको प्रणाम है। आप रथपर बैठकर तथा बिना रथके भी घूमनेवाले हैं। जल, अग्नि, वायु तथा आकाश—इन चारों मार्गोंपर आपके रथकी गति है। आप काले मृगचर्मको बुपट्टेकी भाँति ओढ़नेवाले और सर्परूप यज्ञोपवीत धारण करनेवाले हैं; आपको प्रणाम है।

ईशान! आपका शरीर बज्रके समान कठोर है। हरिकेश! आपको नमस्कार है। व्यस्ताव्यवतस्वरूप परमेश्वर! आप त्रिनेत्रधारी तथा अम्बिकाके स्वामी हैं; आपको नमस्कार है। आप कामस्वरूप कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, कामदेवके नाराक, तुल-अतुलका विचार करनेवाले, सर्वस्वरूप, सब कुछ देनेवाले, सबके संहारक और संध्याकालके समान लाल रंगवाले हैं; आपको प्रणाम है। महान् मेघोंकी घटाके समान श्यामवर्णवाले महाकाल! आपको नमस्कार है। आपका शीविप्रहृ स्फूल, शीर्षजटाधारी तथा धल्कल और मृगचर्म धारण करनेवाला है। आप देदीप्यमान सूर्य और अग्निके समान ज्योतिर्मयी जटासे सुशोभित हैं। धल्कल और मृगचर्म ही आपके वस्त्र हैं। आप सहस्रों सूर्योंके समान प्रकाशमान और सदा तपस्यामें संलग्न रहनेवाले हैं; आपको प्रणाम है। आप जगत्को मोहमें डालनेवाले और गङ्गाकी सैकड़ों लहरोंको धारण करनेवाले हैं। आपके मस्तकके बाल सदा गङ्गाजलसे भीगे रहते हैं। आप चन्द्रावतं (चन्द्रमाको चारोंधार सप्तद्विके चक्रमें डालनेवाले), युगावतं (युगोंका परिवर्तन करनेवाले) और मेघावतं (वायुरूपसे मेघोंको घुमानेवाले) हैं; आपको नमस्कार है। आप ही अन्न, अन्नदाता, अन्नभोजी, अन्नलप्टा, पाचक, पचवाप्रभोजी तथा पवन एवं अग्निरूप हैं। देवदेवेश्वर! जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज्ज—ये चार प्रकारके प्राणी आप ही हैं। आप ही चराचर जीवोंकी सृष्टि और संहार करनेवाले हैं। ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ! तानी पुरुष आपको ही श्रद्धाज्ञानियोंका ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मवादी विद्वान् आपहीको मनका परम कारण, आकाश, वायु, तेज, श्रेष्ठ, साम तथा प्रणव बतलाते हैं। सुरश्रेष्ठ! सामगान करनेवाले वेदवेत्ता पुरुष 'हायि हायि, हुवा हायि, हावु हायि' आदिका उच्चारण करते हुए निरन्तर आपहीको महिमाका गायन करते हैं। यजुर्वेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही हृदिष्प हैं। वेद और उपनिषदोंकी स्तुतियोंद्वारा आपहीकी महिमाका बलान होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निम्न वर्णके लोग भी आपहीके स्वरूप हैं। मेघोंकी घटा, बिजली, गर्जना और गड़गड़हट भी आप ही हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, युग,

निमेष, काष्ठा, नक्षत्र, ग्रह तथा कला भी आपके ही रूप हैं। बुद्धोंमें प्रधान बट-आश्वत्थ आदि, पर्वतोंमें शिखर, वनजंतुओंमें व्याघ्र, पक्षियोंमें गरुड, सर्पोंमें अनन्त, समुद्रोंमें क्षीरसागर, यन्त्रों (अस्त्रों) में धनुष, शस्त्रोंमें वज्र तथा व्रतोंमें सत्य भी आप ही हैं। आप ही इच्छा, द्वेष, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, धर्म, सोम, काम, क्रोध, जय तथा पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खाटका पाया तथा भ्रंशरनामक अस्त्र धारण करनेवाले हैं। आप ही छंता (छेदन करनेवाले), भेता (भेदन करनेवाले), प्रहर्ता (प्रहार करनेवाले), नेता, मन्ता (मनन करनेवाले) तथा पिता हैं। इस प्रकारके धर्म, अर्थ और काम भी आप ही हैं। गङ्गा आदि नदियाँ, समुद्र, गड़हा, तालाव, लता, बल्ली, तुण, ओषधि, पशु, मृग, पक्षी, द्रव्य, कर्म-समारम्भ तथा फूल और फल देनेवाला काल भी आप ही हैं।

आप देवताओंके आदि-अन्त हैं। गायत्री-मन्त्र और अकारस्वरूप हैं। हरित, रोहित, नील, कृष्ण, सप्त, अरण, कद्रु, कपिल, कपोत (कबूतरके समान) तथा मेचक (श्याम-मेचके समान)—ये इस प्रकारके रंग भी आपहीके स्वरूप हैं। आप वर्णरहित होनेके कारण अवर्ण और सच्छे वर्णवाले होनेसे सुवर्ण कहलाते हैं। आप वर्णोंके निर्माता और मेघके समान हैं। आपके नाममें सुन्दर वर्णों (अक्षरों) का उपयोग हुआ है, इसलिये आप सुवर्णनामा हैं तथा आपको सुवर्ण प्रिय है। आप ही इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, उपन्व (प्रहण), चित्रमानु (सूर्य), राहु और भानु हैं। होत्र (सुवा), होता, हवनीय पदार्थ, हवनक्रिया तथा (उसके फल देनेवाले) परमेश्वर भी आप ही हैं। वेदकी तिसौपर्ण नामक धृतियोंमें तथा यजुर्वेदके शतत्रिंशत्प्रकरणमें जो बहुतसे वैदिक नाम हैं, वे सब आपहीके नाम हैं।

आप पवित्रोंके भी पवित्र और मङ्गलोंके भी मङ्गल हैं। आप ही गिरिक (अचेतनको भी चेतन करनेवाले), हिड्क (गमनागमन करनेवाले), वृक्ष (संसार), जीव, पुद्गल (देह), प्राण, सत्त्व, रज, तम, अप्रमव (स्वीरहित—ऊर्ध्व-रेता), प्राण, अपान, समान, उदान, ध्यान, उन्मेष-निमेष (आँसोंका छोलना-भोचना), छोकना और जेमाई सेना आदि श्रेष्ठार्थ हैं। आपको अग्निमयी द्वाद्वि लाल रंगकी तथा भीतर छिपी हुई है। आपके मुख और उदर महान् हैं। रोड़े सूईके समान हैं। दाढ़ी-मूछ काली है। सिरके बाल ऊपरकी ओर उठे हुए हैं। आप चराचरस्वरूप हैं। गाने-बजानेके तत्त्वको जाननेवाले हैं। गाना-बजाना आपको अधिक प्रिय है। आप मत्स्य, जलचर और जालघारी यद्वियाल हैं। फिर भी अकल (बग्नते) परे हैं। आप

तथा कलहरूप हैं। आप ही अकाल, अतिकाल, दुष्काल तथा काल हैं। मृत्यु, क्षुर (छेदन करनेका शस्त्र), कृत्य (छेदन करनेयोग्य), पक्ष (मित्र) तथा अपक्षक्षयंकर (शत्रुपक्षका नाश करनेवाले) भी आप ही हैं। आप मेघके समान काले, बड़ी-बड़ी दाढ़ीवाले और प्रलयकालीन मेघ हैं। घण्ट (प्रकाशवान्), अघण्ट (अव्यक्त प्रकाशवाले), घटी (कर्म-फलसे युक्त करनेवाले), घण्टी (घण्टावाले), चरुचेली (जीवोंके साथ क्रीडा करनेवाले) तथा मिलीमिली (कारण-रूपसे सबमें व्याप्त)—ये सब आपहीके नाम हैं। आप ही ब्रह्म, अग्नियोंके स्वरूप, दण्डी, मुण्ड तथा त्रिदण्डधारी हैं। चार युग और चार वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा चार प्रकारके होतृकर्मोंके आप ही प्रवर्तक हैं। आप चारों आश्रमोंके नेता तथा चारों वर्णोंकी सृष्टि करनेवाले हैं। आप ही अक्षप्रिय, धूर्त, गणाध्यक्ष और गणाधिप आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। आप रक्त वस्त्र तथा लाल फूलोंकी माला पहनते हैं, पर्वतपर शयन करते और गेरुए वस्त्रसे प्रेम रखते हैं। आप ही छोटे और बड़े शिल्पी (कारीगर) तथा सब प्रकारकी शिल्पकलाके प्रवर्तक हैं।

आप भगदेवताकी आँख फोड़नेके लिये अंकुश, चण्ड (अत्यन्त कोप करनेवाले) और पूपाके दाँत नष्ट करनेवाले हैं। स्वाहा, स्वधा, वपट्कार, नमस्कार और नमोनमः आदि पद आपके ही नाम हैं। आप गूड़ व्रतधारी, गुप्त तपस्या करनेवाले, तारकमन्त्र और ताराओंसे भरे हुए आकाश हैं। धाता (धारण करनेवाले), विधाता (सृष्टि करनेवाले), संधाता (जोड़नेवाले), विधाता, धरण और अधर (आधार-रहित) भी आपहीके नाम हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, ब्रह्म-चर्य, आजंब (सरलता), भूतात्मा (प्राणियोंके आत्मा), भूतोंकी सृष्टि करनेवाले, भूत (नित्यसिद्ध), भूत, भविष्य और वर्तमानके उत्पत्तिके कारण, भूलोक, भ्रुवलोक, स्वलोक, ध्रुव (स्थिर), दान्त (दमनशील) और महेश्वर हैं। दीक्षित (यज्ञकी दीक्षा लेनेवाले), अदीक्षित, क्षमावान्, दुर्दान्त, उदृष्ट प्राणियोंका नाश करनेवाले, चन्द्रमाकी आवृत्ति करने-वाले (मास), युगोंकी आवृत्ति करनेवाले (कल्प), संवर्त (प्रलय) तथा संवर्तक (पुनः सृष्टि-संचालन करनेवाले) भी आप ही हैं। आप ही काम, विन्दु, अणु (सूक्ष्म) और स्थूलरूप हैं। आप कनेरके फूलकी माला अधिक पसंद करते हैं। आप ही नन्दोमुख, भीममुख (भयंकर मुखवाले), सुमुख, दुर्मुख, अमृत (मुषरहित), चतुर्मुख, बहुमुख तथा युद्धके समय शत्रुका संहार करनेके कारण अग्निमुख (अग्निके समान मुखवाले) हैं। हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा), शकुनि (पक्षीके समान अस्तङ्ग), महान् तपोंके स्वामी (शेषनाग) और विराट भी

आप ही हैं। आप अधर्मके नाशक, महापार्श्व, चण्डधार गणाधिप, गोनर्द, गौओंकी आपत्तिसे बचानेवाले, नन्दीक सवारी करनेवाले, व्रलोक्यरक्षक, गोविन्द (श्रीकृष्णरूप) गोमार्ग (इन्द्रियोंके आश्रय), अमार्ग (इन्द्रियोंके अगोचर) श्रेष्ठ, स्थिर, स्थाणु, निष्कम्प, कम्प, दुर्वारण (जिनका सामन करना कठिन है, ऐसे) दुर्विषह (असह्य वेगवाले), दुःसह दुर्लङ्घ्य, दुर्द्वेष, दुष्प्रकम्प, दुर्विष, दुर्जय, जय, शश (शीघ्रगामी), शशाङ्क (चन्द्रमा) तथा शमन (यमराज) हैं। सर्वो, गर्भो, भूधा, बृद्धावस्था तथा मानसिक चिन्ताकं दूर करनेवाले भी आप ही हैं। आप ही आधि-व्याधि तथा उरं दूर करनेवाले हैं। मेरे यज्ञरूपी मृगके वधिक तथा व्याधियों को लाने और मिटानेवाले भी आप ही हैं। (कृष्णरूपमें) मस्तकपर शिखण्ड (मोरपंख) धारण करनेके कारण आप शिखण्डी हैं। पुण्डरीक (कमल) के समान सुन्दर नेत्र होनेके कारण पुण्डरीकाक्ष कहलाते हैं। आप कमलके चनमें निवार करनेवाले, दण्ड धारण करनेवाले, व्यम्बक, उग्रदण्ड और ब्रह्माण्डके संहारक हैं। विषाग्निको पी जानेवाले, देवश्रेष्ठ सोमरसका पान करनेवाले और मरुद्गणोंके ईश्वर हैं। देवाधिदेव ! जगन्नाथ ! आप अमृतपान करनेवाले और गणोंके स्वामी हैं। विषाग्नि तथा मृत्युसे रक्षा करते और दूध एवं सोमरसका पान करते हैं। आप खुलसे भ्रष्ट हुए जीवोंके प्रधान रक्षक तथा तुषितनामक देवताओंके आदिभूत ब्रह्माजीका भी पालन करनेवाले हैं। आप ही हिरण्यरेता (अग्नि), पुरुष (अन्तर्यामी), स्त्री, पुरुष और नपुंसक हैं। बालक, युवा और वृद्ध भी आप ही हैं। नागेश्वर ! आप जीर्ण दाढ़ीवाले और इन्द्र हैं। विश्वकृत् (जगत्के संहारक), विश्वकर्ता (प्रजापति), विश्वकृत् (ब्रह्माजी), विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतियोंमें श्रेष्ठ, विश्वका भार वहन करनेवाले, विश्वरूप, तेजस्वी और सब ओर मुखवाले हैं। चन्द्रमा और सूर्य आपके नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा हृदय हैं। आप ही समुद्र हैं, सरस्वती आपकी वाणी है, अग्नि और वायु बल हैं तथा आपके नेत्रोंका खुलना और बंद होना ही दिन और रात्रि हैं।

शिव ! आपके माहात्म्यको ठीक-ठीक जाननेमें ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं हैं। आपके सूक्ष्म रूप हमलोगोंको दृष्टिमें नहीं आते। भगवन् ! जैसे पिता अपने औरस पुत्रकी रक्षा करता है, उसी तरह आप मेरी रक्षा करें। अनघ ! मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ, आप अवश्य मेरी रक्षा करें; मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भयतोंपर दया करनेवाले भगवान् हैं और मैं सदाके लिये

डालकर सबके लिये दुबोध ही रहे हैं, अद्वितीय हैं तथा समुद्रके समान कामनाओंका अन्त होनेपर प्रकाशमें आते हैं; वे परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करें। जो निद्राके बशीभूत न होकर प्राणोंपर विजय पा चुके हैं और इन्द्रियोंको जीतकर सत्त्वगुणमें स्थित हैं—ऐसे धांगीलोग ध्यानमें जिस ज्योतिर्मय तत्त्वका साक्षात्कार करते हैं, उस योगात्मा परमेश्वरको नमस्कार है। जो जटा और दण्ड धारण किये हुए हैं, जिनका उदर विशाल है तथा कमण्डलु ही जिनके लिये तरकशका काम देता है; ऐसे ब्रह्माजीके रूपमें विराजमान भगवान् शिवकी प्रणाम है। जिनके केशोंमें बादल, शरीरकी संधियोंमें नदियाँ और उदरमें चारों समुद्र हैं; उन जलस्वरूप परमात्माको नमस्कार है। जो प्रलयकाल उपस्थित होनेपर सब प्राणियोंका संहार करके एकाण्वके जलमें शयन करते हैं, उन जलशापी भगवान्की मैं शरण लेता हूँ। जो रातमें राहुके मुखमें प्रवेश करके स्वयं चन्द्रमाके अमृतका पान करते हैं तथा स्वयं ही राहु बनकर सूर्यपर ग्रहण लगाते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। उत्पन्न हुए नवजात शिशुओंकी भाँति जो देवता और पितर यज्ञमें अपने-अपने भाग ग्रहण करते हैं, उन्हें नमस्कार है। वे 'स्याहा और स्वघा' के द्वारा अपने भाग प्राप्तकर प्रसन्न हों। जो ध्रुव अङ्गुष्ठमात्र जीवके रूपमें सम्पूर्ण देहाधारियोंके भीतर विराजमान हैं, वे सदा मेरी रक्षा और वृद्धि करें। जो देहके भीतर रहते हुए स्वयं न रोककर देहाधारियोंको ही रक्षते हैं, स्वयं हृदयित न होकर उन्हें ही हृदयित करते हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। नदी, समुद्र, पर्वत, गूहा, युष्ठीकी जड़, गोशाला, दुर्गम पथ, वन, चौराहे, सड़क, चौतरे, किनारे, हस्तिशाला, अश्वशाला, रथशाला, पुराने बगीचे, जीर्ण गृह, पञ्च भूत, दिशा, विदिशा, चन्द्रमा, सूर्य तथा उनकी किरणोंमें, रसातलमें और उससे मिला स्थानोंमें भी जो अधिष्ठाता देवताके रूपमें व्याप्त हैं, उन सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिनकी संख्या, प्रमाण और रूपकी इयत्ता नहीं है, जिनके गुणोंकी गिनती नहीं हो सकती, उन यदोंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ।

आप सम्पूर्ण भूतोके जन्मदाता, सबके पालक और संहारक हैं तथा आप ही समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं। नामा प्रकारकी दक्षिणाओंवाले यज्ञोंद्वारा आपहीका यजन किया जाता है और आप ही सबके कर्ता हैं; इसीलिये मैंने आपको अलग निमन्त्रण नहीं दिया; अथवा देव! आपकी सूक्ष्म मायासे मैं मोहमें पड़ गया था, इस कारण निमन्त्रण देनेमें भूल हुई है। भगवान्! मैं भवित्भावके साथ आपकी शरणमें आया हूँ, इसलिये अब मुझपर प्रसन्न होइये। मेरा हृदय, मेरी बुद्धि और मेरा मन सब आपमें समर्पित है।

इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके प्रजापति बस चुप हो गये। तब भगवान् शिवने बहुत प्रसन्न होकर दक्षसे कहा—'उत्तम धतका पालन करनेवाले दक्ष! तुम्हारेद्वारा की हुई इस स्तुतिसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ; अधिक क्या कहूँ, तुम मेरे निकट निवास करोगे। प्रजापते! मेरे प्रसादसे तुम्हें एक हगार अश्वमेध तथा एक सहस्र वाजपेय यज्ञका फल मिलेगा।' तदनन्तर, लोकनाथ भगवान् शिवने प्रजापतिको सान्त्वना देते हुए फिर कहा 'दक्ष! दक्ष! इस यज्ञमें जो विघ्न डाला गया है, इसके लिये तुम खेद न करना। मैंने पहले कल्पमें भी तुम्हारे यज्ञका विध्वंस किया था। यह घटना भी पूर्वकल्पके अनुसार ही हुई है। सुव्रत! मैं पुनः तुम्हें बरदान देता हूँ, इसे स्वीकार करो और प्रसन्नवदन एवं एकाग्रचित्त होकर मेरी बात सुनो—मैंने पूर्वकालमें पशुपत वेद, सांख्ययोग और तर्कसे निरचित करके देवता और दानवोंके लिये भी दुष्कर तपका अनुष्ठान किया था। उसका नाम है पागुपतव्रत। वह कल्याणमय व्रत मेरा ही प्रकट किया हुआ है। उसके अनुष्ठानसे महान् फलकी प्राप्ति होती है। महामाग! उसी पागुपतव्रतका फल तुम्हें प्राप्त हो; अब तुम अपनी मानसिक चिन्ता त्याग दो।'

यह कहकर महादेवजी अपनी पत्नी पार्वती तथा अनुचरोके साथ दक्षकी दृष्टिसे ओम्नल हो गये। जो मनुष्य दक्षके द्वारा किये हुए इस स्तवबनका कीर्तन या श्रवण करेगा उसका कभी अमङ्गल नहीं होगा तथा उसे दोषाणुकी प्राप्ति होगी। जैसे सम्पूर्ण देवताओंमें भगवान् शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण स्त्रीओंमें यह स्तवबन श्रेष्ठ है। यह साक्षात् वेदके समान है। जो यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम, अर्थ, धन या विद्याकी इच्छा रखते हो, उन सबको मन्वितपूर्वक इस स्तोत्रका श्रवण करना चाहिये। रोगी, दुःखी, बीन, चोरके हाथमें पड़ा हुआ, भयभीत तथा राजाके कार्यका अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्रका पाठ करनेसे महान् भयसे छुटकारा पा जाता है। वह इसी देहसे भगवान् शिवके गणोंकी समता प्राप्त कर लेता है और तेजस्वी, यशस्वी एवं निर्मल हो जाता है। जहाँ इस स्तोत्रका पाठ होता है, उस घरमें राक्षस, पिशाच, भूत और विनायक कोई विघ्न नहीं करते। जो स्त्री भगवान् शंकरमें भक्ति रखकर ब्रह्मचर्यका पालन करती हुई इस स्तोत्रका श्रवण करती है, वह पिता और पति—दोनोंके घरमें देवताकी भाँति पूजी जाती है। जो मनुष्य समाहित चित्तसे इसका श्रवण या कीर्तन करता है, उसके सभी कार्य सदा सफल हुआ करते हैं। इस स्तोत्रके पाठसे मनमें सोचों हुई तथा वाणीद्वारा प्रकट की

प्रकारकी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रियोंको संयममें रखकर शीघ्र-संतोष आदि नियमोंका पालन करते हुए कार्तिकेय, पार्वती और नन्दिकेश्वर आदि अद्भुतदेवताओंकी पूजा करके उन्हें बलि अर्पण करे; फिर एकाग्रचित्त होकर क्रमशः इन नामोंका पाठ करे। इस विधि-

से पाठ करनेपर वह इच्छानुसार धन, काम और उपभोगकी सामग्री प्राप्त करता है तथा मरनेके पश्चात् स्वर्गमें जाता है। उसे पशु-पक्षी आदिकी योनिमें जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार पराशरनन्दन भगवान् व्यासजीने इस स्तोत्रका माहात्म्य बतलाया है।

समझका नारदजीसे अपनी शोकहीन स्थितिका वर्णन तथा नारदजीका गालव मुनिको श्रेयका उपदेश

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! संसारके जीव दुःख और मृत्युसे सदा डरते रहते हैं; अतः आप ऐसा उपदेश करें, जिससे हमें उन दोनोंका ही भय न रहे।

भीष्मजीने कहा—भारत! इस विषयमें नारद और रामदुःके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। एक बार नारदजीने रामदुःसे पूछा—‘सुने! तुम सदा आनन्दमग्न और शोकहीन-से दिलायी देते हो। तुम्हारे भीतर कभी लेशमात्र भी उद्वेग नहीं बोल पड़ता। तुम सदा संतुष्ट और अपने आपमें ही स्थित रहकर बालकोंकी भाँति खेला किया करते हो, इसका क्या कारण है?’

समझने कहा—मानव! मैं भूत, वर्तमान और भविष्यके स्वरूप तथा उसके तत्त्वको जानता हूँ, इसीसे मेरे मनमें कभी विषाद नहीं होता। मुझे कर्मोंके आरम्भका तथा उनके फलोदयकालका भी ज्ञान है और लोकमें जो भाँति-भाँतिके कर्मफल प्राप्त होते हैं, उनकी भी मैं जानता हूँ, इसीसे कभी उदास नहीं होता। जगत्में गम्भीर विद्वान्, मूर्ख, अंधे और जड़ भी जीवित रहते हैं तथा स्वस्थ शरीरवाले वैचता, चलवान् और निर्बल—सभी अपने कर्मानुसार जीवन धारण करते हैं, इसी तरह हम भी जी रहे हैं। हजार रुपये-माले भी जीवित हैं और सौ रुपयेवाले भी; तथा कुछ लोग साग लाकर ही जीवन धारण करते हैं, इसी तरह हमें भी जीवित समझिये। मनुष्य जिसके कारण किसीको प्राज्ञ (युद्धिमान्) कहते हैं, उस प्रज्ञा (युद्धि) की जड़ है इन्द्रियोंकी प्रसन्नता। जिस मूढ़ इन्द्रियवाले पुरुषकी इन्द्रियाँ शोक और मोहमें पड़ी हैं, उसको प्रज्ञाकी प्राप्ति नहीं होती। मूलकोंके गर्व होता है, उसका यह गर्व मोहरूप ही है। मूढ़ मनुष्यके लिये न यह शोक सुखद होता है, न परलोक। किसीको भी न तो सदा दुःख ही उठाना पड़ता है और न हमेशा सुख ही मिलता है। संसारके स्वरूपको परिचित होता देना हमारे-जैसे मनुष्य कभी संताप नहीं करते, अनुकूल भोग या सुख

पाकर उसका अभिनन्दन नहीं करते तथा प्रतिकूल दुःख प्राप्त होनेपर भी कभी चिन्तित नहीं होते। जिसका चित्त स्थिर हो गया है, वह दूसरोंका धन नहीं चाहता, बहुत-सी सम्पत्ति पाकर हर्षसे फूल नहीं उठता और धनके लब्ध हो जानेपर भी खेद नहीं करता; क्योंकि बन्धु-बान्धव, धन, उत्तम फुल, शास्त्राध्ययन, मन्त्र और वीर्य—इनमेंसे कोई भी दुःखसे छुटकारा नहीं दिला सकते। मनुष्य अपने शील-गुणके कारण ही परलोकमें शान्ति पाता है। जिसका चित्त योग्यपुत्र नहीं है, उसे समत्वबुद्धि नहीं प्राप्त होती, योगके विना सुख भी नहीं मिलता। दुःखों (के प्रति प्रतिकूल-बुद्धि) का त्याग और धर्म—ये ही दोनों सुखके मूल हैं। प्रिय वस्तु प्राप्त होनेपर हर्ष होता है, हर्षसे अभिमान बढ़ता है और अभिमान नरकमें ले जानेवाला है, इसलिये मैं उन तीनोंका त्याग करता हूँ। शोक, भय और अभिमान—ये प्राणियोंको सुख-दुःखमें डालकर मोहित करनेवाले हैं; इसलिये जबतक यह देह चेट्टों पर रहा है, तबतक मैं इन सबको साक्षीकी भाँति देखता हूँ तथा अर्थ, काम, शोक, संताप, तृष्णा और मोहका परित्याग करके—निर्द्वन्द्व होकर इस पृथ्वीपर विचरता हूँ। जैसे अमृत पीनेवालेको मृत्युसे भय नहीं होता, उसी प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोकमें मृत्यु, अधर्म, लोभ तथा दूसरे किसीसे भय नहीं है। नारदजी! मैंने महान् और अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है, इसलिये शोक उपस्थित होकर भी मुझे दुःखमें नहीं डालता।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! जो शास्त्रोंके तत्त्वको नहीं जानता, जिसका मन सदा संशयमें पड़ा रहता है तथा जिसने परमार्थके लिये कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया है, उस पुरुषका कल्याण कैसे हो सकता है? यह बतानेकी कृपा कीजिये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! सदा गुरुजनोंकी पूजा, यज्ञ पुरुषोंकी उपासना और शास्त्रोंका अध्ययन—ये तीन

कल्याणके अमोघ साधन हैं। इस विषयमें भी देवर्षि नारद और महर्षि गालवके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। एक समय गालव मुनिने कल्याण-प्राप्तिकी इच्छासे ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण एवं मनको सदा धरामें रखने-वाले देवर्षि नारदजीके पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रश्न किया—'भगवन् ! आप उत्तम गुणोसे युक्त और ज्ञानी हैं तथा मैं आत्मतत्त्वसे अनभिज्ञ एवं मूढ़ हूँ, अतः आप मेरे संदेहको दूर करें। शास्त्रोंमें बहुतसे कर्तव्य कर्म बताये गये हैं; किंतु वे सब मेरे लिये एक-से हैं। उनमेंसे जिसके अनुष्ठानसे मेरी ज्ञानमें प्रवृत्ति हो सकती है, उसका मैं निश्चय नहीं कर पाता; उसे आप ही निश्चय करके बता दें। सभी आश्रम भिन्न-भिन्न कर्तव्योंकी ओर दृष्टि दिलाते हैं तथा 'यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है' ऐसा कहते हुए वे सब लोगोंसे अपने ही सिद्धान्तोंकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं। दूसरी ओर विभिन्न शास्त्रोंके द्वारा भाति-भातिके उपदेश पाकर मनुष्य नाना प्रकारके शास्त्रीय कर्मोंमें स्थित हैं और सभी अपने-अपने शास्त्रोंकी प्रशंसा करते हैं; इधर मैं भी अपने शास्त्रसे ही संतुष्ट हूँ। ऐसी धरामें उनको और अपनेको समानरूपसे संतुष्ट देखकर मुझे कल्याण-प्राप्तिके उपायका ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाता। यदि शास्त्र एक होता तो श्रेयका उपाय (भी एक ही होनेके कारण) स्पष्टरूपसे समझमें आ जाता; किंतु बहुत-से शास्त्रोंने मिलकर श्रेयमार्गको अत्यन्त मूढ़ बना डाला है, जिससे अब वह संशयग्रस्त जान पड़ता है; इसलिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ, कृपा करके मुझे श्रेयके वास्तविक मार्गका उपदेश कीजिये।

नारदजीने कहा—'तत ! आश्रम चार हैं और शास्त्रोंमें उनकी पृथक्-पृथक् कल्पना की गयी है। तुम मुझकी शरण लेकर उन सबको ध्यायेरूपसे जानो। उन चारों आश्रमोंके स्वरूप और गुण आदि भिन्न-भिन्न हैं। स्थूल दृष्टिसे विचार करनेपर वे सर्वोत्तम अमोघ अर्थात् श्रेयमार्गका निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा पाते। कुछ सूक्ष्मदर्शी विद्वानोंने ही आश्रमोंके परम तत्त्वको ठीक-ठीक समझा है। जो अच्छी तरह कल्याण करनेवाला और संशयसे रहित हो, उसे ही श्रेय कहते हैं। सुहृदोंपर अनुग्रह करना, शत्रुमाय रखनेवाले दुष्ट पुरुषोंको दण्ड देना तथा धर्म, अर्थ और कामका संग्रह करना—इन सबको विद्वान् पुरुष श्रेय कहते हैं। पाप-कर्मसे दूर रहना, पुण्यकर्मोंका निरन्तर अनुष्ठान करना, सत्युपयोगी साय रहकर सदाचारका ठीक-ठीक पालन करना, सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमल और व्यवहारमें सरल होना, मीठी वाणी बोलना, देवताओं, पितरों और अतिथियोंको उनका भाग देना तथा भ्रमण-भोग्य करने योग्य व्यक्तियोंका त्याग

न करना—यह श्रेयका निश्चित साधन है। सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है; किंतु सत्यको ध्यायेरूपसे जानना कठिन है। मैं तो उसे ही सत्य कहता हूँ, जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो। अहंकारका त्याग, प्रमादको रोकना, संतुष्ट होना, अकेले रहकर धर्मका पालन, धर्माचरणपूर्वक वेद और वेदान्तोंका स्वाध्याय तथा उनके सिद्धान्तको जाननेकी इच्छा कल्याणका अमोघ साधन है। जिसे कल्याण-प्राप्तिकी इच्छा हो उस मनुष्यको शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गन्ध—इन विषयोंका अधिक सेवन नहीं करना चाहिये। रातमें घूमना, दिनमें सोना, आलस्य, घुगली, गर्व, अधिक परिश्रम करना तथा परिश्रमसे बिल्कुल दूर रहना—ये सब बातें श्रेय चाहनेवालेके लिये त्याग्य हैं। दूसरोंकी निन्दा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेका प्रयत्न न करे। साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा जो अपनेमें विशेषता है, वह उत्तम गुणों-द्वारा ही प्रकट होनी चाहिये। गुणहीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी तारीफके पुल बांधा करते हैं। वे अपनेमें गुणोंकी कमी देख दूसरे गुणवान् पुरुषोंके दोष बताकर उनपर आक्षेप किया करते हैं। यदि कहीं वे कुछ पढ़ जायें तब तो घमण्डमें आकर अपनेको महापुरुषोंसे भी अधिक गुणी मानने लगें, किंतु जो दूसरे किसीकी निन्दा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता, ऐसा सर्वगुणसम्पन्न विद्वान् ही महान् यशका भागी होता है। फूलोंकी पवित्र एवं मनोहर सुगन्ध बिना बोले ही महककर अनुभवमें आ जाती है तथा सूर्य भी बिना कुछ कहे ही आकाशमें सबके समक्ष प्रकाशित हो जाता है; इसी प्रकार संसारमें बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ हैं जो बोलतीं नहीं; किंतु अपने धरसे प्रकाशित होती रहती हैं। मूल मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा करनेसे ही संसारमें ह्याति नहीं पा सकता, किंतु विद्वान् पुरुष गुणोंमें शिष्टा रहे तो भी उसको सर्वत्र प्रसिद्धि हो जाती है। बुरी बात जोर-जोरसे कही जाय तो भी वह शान्त हो जाती है अर्थात् लोकमें उसका आदर नहीं होता; किंतु अच्छी बात धीरेसे कहनेपर भी संसारमें प्रकाशित होती रहती है—उसका सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। घमंडी मूर्खोंकी कही हुई बहुत-सी असर बातें उनके दूषित हृदयका ही परिचय देती हैं; इस कारण अच्छे लोग प्रज्ञा (ज्ञान) की खोज करते हैं, मुझे तो सब प्राणियोंके लिये ज्ञानकी प्राप्ति ही अच्छी जान पड़ती है। बुद्धिमान् पुरुष ज्ञानवान् होनेपर भी बिना पृष्ठ किसीको कोई उपदेश न करे, अन्यायपूर्वक पृष्ठनेपर भी किसीके प्रश्नका उत्तर न दे, जड़की भाँति घुपचाप बँटा रहे।

मनुष्यको सदा धर्ममें लगे रहनेवाले साधु-महात्माओं तथा स्वधर्मपरायण उदार पुरुषोंके समीप निवास करनेका विचार करना चाहिये। जहाँ चारों बगोंके धर्मोंका परस्पर

सम्भिन्न होता हो, वहाँ श्रेयको इच्छावाले पुरुषको नहीं रहना चाहिये। किसी कर्मका आरम्भ न करनेवाला और जो कुछ गित जाय उससे संतुष्ट रहनेवाला पुरुष भी पुण्यात्माओंके साथ रहनेसे पुण्य और पापियोंके संसर्गसे रहनेसे पापका भागी होता है। जैसे जल और अग्निके संसर्गसे प्रगल्भः शीत और उष्ण स्पर्शका अनुभव होता है, उसी प्रकार पुण्यात्मा और पापियोंके सङ्गसे पुण्य एवं पाप—दोनोंका संयोग हो जाता है। विद्यताशी (भूत-वर्ग और अतिवि आदिको भोजन करनेके बाद भोजन करनेवाले) पुरुष रसायनकी ओर दृष्टि न रख करके ही भोजन करते हैं; किन्तु जो अपनी रसानाय विषय समझकर स्वादु-अस्वादुका विचार करते हुए भोजन करते हैं, उन्हें कर्मपाशमें बँधे हुए समझना चाहिये। जहाँ ब्राह्मण अन्यायपूर्वक प्रश्न करनेवाले पुरुषोंको धर्मका उपदेश करता हो, आत्मज्ञानीको उस देशका परित्याग कर देना चाहिये। जहाँके लोग बिना किसी आधारके ही चित्तान्तर दोषारोपण करते हों, वहाँ कौन रहेगा? जहाँ सालची मनुष्योंने प्रायः धर्मकी गर्वादा तोड़ डाली हो, उस देशको कौन नहीं त्याग देगा?

परंतु जहाँके लोग मात्सर्य और शङ्कासे रहित होकर धर्मान्तरण करते हों, वहाँ पुण्यशील महात्माओंके पास अवश्य निवास करना चाहिये। जिस देशमें मनुष्य धनके लिये धर्मका अनुष्ठान करते हों, वहाँ कभी न रहे; क्योंकि वहाँके निवासी पापी होते हैं। जहाँ जीवनरक्षाके लिये लोग पाप-कर्मसे जीविका चलाते हों, जहाँ राजा और उसके सेवकोंमें कोई अन्तर न हो तथा जहाँके मनुष्य अपने कुटुम्बीजनोंके

पहले ही भोजन कर लेते हों, उस राष्ट्रको ज्ञानी पुरुष त्याग दे। जहाँ धर्ममें श्रद्धा रखनेवाले सनातनधर्मों श्रोत्रिय ब्राह्मण ही यश करने और पढ़ानेके कार्यमें नियुक्त हों तथा उन्हीं लोगोंको पहले भोजन कराया जाता हो, उस देशमें निवास करना उचित है। जहाँ स्वाहा (अग्निहोत्र), स्वधा (श्राद्ध) तथा वपट्कार (इन्द्रयाग) का भलीभाँति अनुष्ठान होता हो, जहाँके लोग बिनः माँगे ही भिक्षा देते हों, जहाँ द्रुष्टोंको दण्ड दिया जाता और साधु पुरुषोंका सम्मान किया जाता हो, वहाँ पुण्यशील महात्माओंके बीच निवास करना चाहिये। जो जितेन्द्रिय पुरुषोंपर क्रोध और साधु-महात्माओंके प्रति अत्याचार करते हों, उन लोभी और उदण्ड पुरुषोंको जिस देशमें अत्यन्त कठोर दण्ड दिया जाता हो तथा जहाँका राजा सदा धर्मपरायण होकर धर्मानुसार ही राज्यका पालन करता हो और सम्पूर्ण कामनाओंका स्वामी (सम्पत्तिमान्) होकर भी विषय-भोगसे विमुक्त रहता हो, वहाँ बिना विचारे ही निवास करना चाहिये; क्योंकि राजाके शील-स्वभाव जैसे होते हैं, वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। यह अपने कल्याणका समय उपरिधत होनेपर अपनी प्रजाका भी कल्याण करता है।

तात! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार यह मैंने श्रेयमार्गका संक्षेपसे वर्णन किया है। विस्तारसे तो आत्मकल्याणकी परिगणना ही ही नहीं सकती। जो इस प्रकारकी वृत्तिसे रहकर जीविका चलाता और प्राणियोंके हितमें मन लगाये रहता है, उस पुरुषको स्वधर्मरूप तपके अनुष्ठानसे इस लोकमें ही परम कल्याणकी प्राप्ति हो जायगी।

—००००—

अरिष्टनेमिका राजा सगरको मोक्षका उपदेश

बुधिष्ठिरने पूछा—पितामह! मेरे-जैसा राजा किस प्रकार योगयुक्त होकर पृथ्वीका पालन कर सकता है? तथा किन गुणोंसे युक्त होनेपर यह आतपितके बन्धनसे छुटकारा पा सकता है?

भीष्मजीने कहा—इस विषयमें राजा सगरके प्रश्न करनेपर अरिष्टनेमिने जो उत्तर दिया था, यह प्राचीन इतिहास में सुनने सुनाऊँगा।

सगरने पूछा—ग्रहण! श्रेयप्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय क्या है? क्या करनेसे मनुष्यको इस लोकमें ही परम सुख (मोक्ष) की प्राप्ति हो सकती है? किन्तु सरह शोक और क्षोभसे पिण्ड दूर रहता है? मुझे यह जाननेको इच्छा है।

भीष्मजी कहते हैं—सगरके इस प्रकार पूछनेपर समस्त शास्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ तार्क्ष्य (अरिष्टनेमि) ने उनमें वैयीसम्पत्तिके गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश किया—'सगर! संसारमें मोक्षका ही सुख वास्तविक सुख है, परंतु जो धन और धान्यके उपाजनमें व्यग्र तथा पुत्र और पशुओंमें आसक्त हो रहा है, उस मूल मनुष्यको उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जिसकी बुद्धि विषयोंमें आसक्त है, उसका मन आसक्त होता है। ऐसे पुरुषको चिकित्सा करनी कठिन है। स्नेह-बन्धनमें बँधे हुए अज्ञानीका मोक्ष नहीं हो सकता। अथ मैं तुम्हें स्नेहके बन्धनोंका परिचय देता हूँ, सुनो। सगम्भदार मनुष्यको ये बातें कान लगाकर और ध्यान देकर सुननी चाहिये। तुम न्यायपूर्वक इन्द्रियोंसे विषयोंका अन्वय



करके उनसे अलग हो जाओ और आनन्दके साथ विचरते रहो; इस बातकी परवा न करो कि संतान हुई है या नहीं? इन्द्रियोंका विययोंके प्रति जो कौतूहल है, उसे मिटाकर भुक्तकी भाँति विचरो और बँबेच्छासे जो भी लौकिक पदार्थ प्राप्त हों, उनमें समान भाव रखो—राग-द्वेष न करो। भुक्त पुरुष सुखी होते और संसारमें निर्भय होकर विचरते हैं; किंतु जिनका चित्त विययोंमें आसक्त होता है, वे अँटियों और कीड़ोंकी तरह आहारका संग्रह करते-करते हो नष्ट हो जाते हैं। अतः जो आसक्तितसे रहित हैं, वे ही इस संसारमें सुखी हैं; आसक्त मनुष्योंका तो नाश हो होता है। यदि तुम्हारी बुद्धि मोक्षमें लगी हुई है तो तुम्हें स्वजनोके लिये ऐसी चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि 'ये मेरे मित्रा कँसे रहेंगे?' प्राणी स्वयं जन्म लेता है, स्वयं बढ़ता है और स्वयं ही सुख-दुःख तथा मृत्युको प्राप्त होता है। मनुष्य पूर्वजन्मके कर्मोंके अनुसार ही भोजन, वस्त्र तथा अपने भासा-पिताके द्वारा संग्रह किया हुआ धन प्राप्त करते हैं। संसारमें जो कुछ मिलता है, वह पूर्वकृत कर्मोंके फलके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। भ्रूमण्डलके समस्त जीव अपने कर्मोंसे सुरक्षित होकर जगत्तमें विचरते हैं और विधाताने उनके प्रारब्धके अनुसार जो कुछ भोग नियत कर दिया है, उसे प्राप्त करते हैं। जो स्वयं ही (शरीरकी दृष्टिसे) मिट्टीका सोंढा, परतल्ल तथा अस्थिर है, वह स्वजनोंकी रसा और पोषण करनेका अभि-

मान क्यों करता है? तुम देखते हो और बचानेका भारो-से-भारो मल भी करते हो तो भी जब मीत तुम्हारे स्वजनकी मारे बिना नहीं छोड़ती तो तुम्हारी क्या ताकत है? इस बातपर स्वयं विचार करो। तुम्हारे ये सगे-सम्बन्धी जीवित भी रहें और इनके भरण-पोषणका कार्य समाप्त न भी हुआ हो तब भी तो तुम एक दिन इन्हें छोड़कर मर जाओगे! अथवा जब कोई स्वजन मरकर इस लोकसे चला जायगा, उस समय यहाँ वह सुखी होगा या दुःखी? इस बातको तो तुम नहीं जान सकोगे। अतः इसपर स्वयं विचार करो। तुम मर जाओ या जीवित रहो, तुम्हारे कुटुम्बका प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कर्मका ही फल भोगेगा—दँसा जानकर तुम्हें अपने कल्याण-साधनमें सागा जाना चाहिये। संसारमें कौन किसका है? इसका भलीभाँति विचार करके दृढ़ निरचयके साथ अपने मनको मोक्षमें सागा दो।

अब आगेकी बातपर भी ध्यान दो—जितने क्षुधा, पिपासा, क्रोध, लोभ और मोह आदि भावोंपर विजय पा ली है, उस सत्त्वसम्पन्न पुरुषको भुक्त ही समझना चाहिये। जो मोहवश प्राप्तबुद्धके कारण जुआ, मद्यपान, स्त्रीसंसर्ग तथा भूगया आदिमें प्रवृत्त नहीं होता, वह भी भुक्त ही है। जो सदा योगयुक्त होकर स्त्रीमें भी आत्मवृद्धि ही रसता है—उसे मोष्य-बुद्धिसे नहीं देखता, वही यथार्थ भुक्त है। जो प्राणियोंके जन्म, मृत्यु और कर्मोंके सत्त्वकी ठीक-ठीक जानता है, वह भी इस संसारमें भुक्त ही है। जो हजारों और करोड़ों गाड़ी अन्नमेंसे एक प्रस्य (सिरमर) को ही पेट भरनेके लिये पर्याप्त शमभता है (उससे अधिक संग्रह करना नहीं चाहता) तथा बड़े-से-बड़े महलमें भी भाव बिछाने भरकी जगहको ही अपने लिये आवश्यक मानता है, वह भुक्त हो जाता है। जो थोड़े-से साममें ही संतुष्ट रहता है—जिते भाषाके अब्भुत भाव छू नहीं सकते, जिसके लिये पलंग और भूमिकी शय्या एक-सी है, जो रोशनी बन्द, कुशाके बने कपड़े, ऊनी वस्त्र और वल्कलको समान भावसे देखता है, संसारको पाञ्चमीतिक शमभता है तथा जिसके लिये सुख-दुःख, साम-हानि, जन्म-पराजय, इच्छा-द्वेष और भय-उद्वेग बराबर हैं, वह सर्वथा भुक्त ही है। जो इस देहको रबत, मल, मूत्र तथा बहुत-से दोषोंका खजाना समझता है और इस बातको कभी नहीं भूलता कि बड़ापा आनेपर भूरियाँ पड़ जायेंगी, बाल पक जायेंगे, देह दुबला-पतला एवं सौन्दर्यहीन हो जायगा, कमर भी मुक जायगी, पुरुषार्थ नष्ट हो जायगा, आँखोंसे सूनू नहीं पड़ेगा, कान बहरे हो जायेंगे और प्राणशक्ति क्षीण हो जायगी; यह पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। श्रयि, देवता और असुर सब इस लोकसे परलोकको चले गये; हजारों प्रभावशाली

राजाओंको पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा है—इस बातको जो सदा याद रखता है, वह मुक्त हो जाता है।

‘संसारमें धन दुर्लभ है और क्लेश सुलभ। कुटुम्बके पालन-भोषणमें भी यहाँ बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, गुणहीन संतान तथा विपरीत गुणोंवाले मनुष्योंसे भी पाला पड़ता है। इस प्रकार संसारमें अधिकांश कष्ट ही दिखायी देता है—यह जानकर भी कौन मनुष्य मोक्षका

आदर नहीं करेगा? शास्त्रोंके अवलोकनसे ज्ञानवान् होकर जो सम्पूर्ण मानव-जगत्को असारं समझता है, वह सब प्रकारसे मुक्त ही है। मेरे इस वचनको सुनने के पश्चात् तुम्हारी बुद्धि गृहस्थाश्रममें स्थिर हो या संन्यासाश्रममें; वहाँ ही रहकर मुक्तकी भाँति आचरण करो।’

राजा सगर अरिष्टनेमिके उपर्युक्त उपदेशको सुनकर मोक्षोपयोगी गुणोंसे युक्त ही प्रजाका पालन करने लगे।

राजा जनकको पराशर मुनिका उपदेश

(पराशर-गीता)

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! जैसे अमृत पीनेसे मन नहीं भरता, उसी तरह आपके वचन सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिये पूछता हूँ—पुरुष कौन-सा कर्म करे तो उसे इस लोक और परलोकमें परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है? यही बतानेकी कृपा करें।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! इस विषयमें भी मैं पूर्ववत् तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हूँ। एक बार



महायशस्वी राजा जनकने महात्मा पराशरजीसे पूछा ‘मुनिवर! कौन-सा कर्म सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये इस लोक

और परलोकमें भी कल्याणकारी है?’ राजाका यह प्रश्न सुनकर तपस्वी पराशर मुनिने उनपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे कहा।

पराशरजी बोले—राजन्! धर्मका आचरण ही इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला है। धर्मकी शरण लेनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है। सभी आश्रमवाले धर्ममें आस्था रखकर अपने-अपने कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं। संसारमें जीवन-निर्वाहके लिये चार प्रकारकी जीविकाका विधान है (ब्राह्मणके लिये दान लेना, क्षत्रियके लिये कर लेना, वैश्यके लिये खेती आदि और शूद्रके लिये सेवा)। मनुष्य जिस वर्णमें उत्पन्न होते हैं, उसके अनुकूल जीविका भी इच्छानुसार प्राप्त हो जाती है। जिसने पूर्वजन्ममें शुभ कर्मोंका अनुष्ठान नहीं किया है, उसे सुख नहीं मिलता। देहत्यागके पश्चात् मनुष्यको पुण्यकर्मोंसे ही सुखकी प्राप्ति होती है। पहले जन्ममें जो कर्म नहीं किया गया है, उसका फल नहीं मिलता। लोग सदा इस बातको याद रखते हैं कि (मन, वाणी, चक्षु और हाथोंके द्वारा किये हुए) चार प्रकारके कर्म ही दूसरे जन्ममें फलकी प्राप्ति करानेवाले होते हैं। लोकयात्राके निर्वाह और मनकी शान्तिके लिये वैदिक वचनोंको प्रमाण माना गया है। मनुष्य नेत्र, मन, वाणी और क्रियाके द्वारा चार प्रकारके कर्म करते हैं; उनमें जिसका जैसा कर्म होता है, उन्हें वैसे ही फलकी प्राप्ति होती है। कर्मके फलरूपसे कभी केवल सुख, कभी केवल दुःख और कभी दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्यों न हो, फल भोगे बिना उसका नाश नहीं होता। जबतक मनुष्य पापके फलरूप दुःखके भोगसे छुटकारा नहीं पा जाता, तबतक उसका पुण्य अक्षयकी भाँति स्थित रहता है। जब पापजनित दुःखका

भोग समाप्त हो जाता है, तब पुष्ट्य अपने पुष्पकर्मके फलका उपभोग आरम्भ करता है। जब पुष्पका भी क्षय हो जाता है, तब फिर वह पापका फल भोगता है।

इन्द्रियसंयम, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्यभाषण, सज्जा, अहिंसा, दुर्गमसनका अभाव तथा चतुरता—ये सब गूण मुख देनेवाले हैं। मनुष्यको जीवनपर्यन्त पाप या पुष्पमें ही आसक्त न होकर अपने मनको परमात्माके ध्यानमें लगानेका प्रयत्न करना चाहिये। जीव दूसरेके किये हुए शुभ अथवा अशुभ कर्मको नहीं भोगता। वह स्वयं जंसा करता है, वंसा फल पाता है। मनुष्य दूसरेके जिस कर्मको निन्दा करता है, उसे स्वयं भी वह कर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो दूसरेको तो निन्दा करता है, किंतु स्वयं वैसे ही कर्ममें लगा रहता है; उसका जगत्में उपहास होता है। डरपीक क्षत्रिय, (भक्ष्यामक्ष्यका विचार न करके) सब कुछ खानेवाला और सत्यसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण, बेरोजगार वैश्य, आलसी शूद्र, शीलरहित विद्वान्, सदाचारका पालन न करनेवाला कुलीन, दुराचारिणी स्त्री, विषमासक्त योगी, केवल अपने लिये भोजन बनातेवाला मनुष्य, भूलें बक्ता, राजासे हीन राष्ट्र तथा अजितेन्द्रिय होकर प्रजाके प्रति स्नेह न रखनेवाला राजा—ये सब शोकके योग्य हैं।

राजन्! आद्य दुर्लभ वस्तु है, इसे पाकर आत्माको नीचे नहीं गिराना चाहिये; अपितु, पुष्पकर्मका अनुष्ठान करते हुए ऊँचे उठनेका प्रयत्न करना चाहिये। पुष्पकर्मसे ही मनुष्य उत्तम वर्णमें जन्म पाता है; पापीके लिये वह अत्यन्त दुर्लभ है। वह उसे न पाकर अपने पापके द्वारा अपना ही नारा कर लेता है। अनजानमें जो पाप बन जाय, उसे तपस्याके द्वारा नष्ट कर दे; क्योंकि अपना किया हुआ पाप पापहृत् ही फल देता है। अतः दुःख देनेवाले पापकर्मका कभी सेवन न करे। पापका फल कितना कष्टप्रद है, इसे मैं जानता हूँ। उससे प्रभावित मनुष्य अनात्मामें ही आत्मबुद्धि करने लगता है। बिना रंगा हुआ वस्त्र धोनेसे स्वच्छ हो जाता है, किंतु जो काले रंगमें रंगा हो वह नहीं सफेद होता। इसी तरह पापको ही काले रंगके समान ही समझना चाहिये। जो स्वयं जान-बूझकर पाप करनेके परचाउ उसका प्रायश्चित्त करनेके लिये पुनः शुभ कर्मका अनुष्ठान करता है; वह उन दोनोंका पृथक्-पृथक् फल भोगता है। अनजानमें जो हिंसा होयी है, वह अहिंसाव्रतका पालन करनेसे दूर हो जाती है; किंतु स्वेच्छासे किये हुए पापको वह भी नहीं दूर कर सकती—ऐसा वेद-शास्त्रोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंका कथन है। परंतु मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पुष्प या पाप जान-बूझकर हो या अनजानमें, उसका कुछ-न-कुछ फल होता ही है।

देवता और मुनियोंने जो कर्म किये हैं, धर्मात्मा पुष्पको उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये तथा मुनकर उन कर्मोंकी निन्दा भी नहीं करनी चाहिये। जो मनुष्य मनमें खूब सोच-विचारकर 'यह काम मुझमें हो सकेगा या नहीं?' इस बातका निश्चय करके शुभकर्मका अनुष्ठान करता है, वह अवश्य ही अपनी भलाई देखता है।

अतः राजाको चाहिये कि अपने उन्नतिशील शत्रुओंको जीते। प्रजाका न्यायपूर्वक पालन करे, नाना प्रकारके यत्नोंका अनुष्ठान करके अग्निदेवको तृप्त करे तथा वैराग्य होनेपर मध्यम अवस्था या अन्तिम अवस्थामें वनमें जाकर रहे। राजन्! प्रत्येक पुष्ट्यको इन्द्रियसंयमी और धर्मात्मा होकर समस्त प्राणियोंको अपने ही समान समझना चाहिये तथा जो विद्या, तप और अवस्थामें अपनेसे बड़े हों उनको वधा-शक्ति पूजा करनी चाहिये। भरेन्द्र! सत्यभाषण तथा अच्छे बर्तावसे ही सबको सुख मिलता है।

श्रेष्ठ पुष्ट्यको दिया हुआ दान और श्रेष्ठ पुष्ट्यसे प्राप्त हुआ प्रतिग्रह—इन दोनोंका महत्त्व बराबर है, तो भी प्रतिग्रह स्विकार करनेको अपेक्षा दाता होकर दान देना ही अधिक पवित्र माना गया है। जो धन न्यायसे प्राप्त हुआ हो और न्यायसे ही बढ़ाया गया हो, उसे धर्मके उद्देश्यसे यत्नपूर्वक बचाये रखना चाहिये—यह धर्मशास्त्रका निश्चय है। धर्म चाहनेवालेको क्रूर-कर्मके द्वारा धनका उपाजन नहीं करना चाहिये। अधर्मसे सम्पत्ति बढ़ानेका विचार भी मनमें नहीं लाना चाहिये। जो (भीसमका विचार करके) अतिथिको ठंडा या गरम किया हुआ जल पवित्र भावसे अर्पण करता है, उसे भूलेंको भोजन देनेके समान फल प्राप्त होता है। महात्मा राजा रन्तिदेवने फल-भूल और पत्तोंसे श्रुतियोंका पूजन किया था और इसीसे उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई, जिसकी सब लोग अभिलाषा करते हैं। महाराज शौच्यने भी फल और पत्तोंसे ही माठर मुनिको संतुष्ट किया था, जिससे उन्हें उत्तम लोक मिला। प्रत्येक मनुष्य देवता, अतिथि, भृत्यवर्ग और पितरोंका तथा अपना भी श्रेणी होकर जन्म लेता है; अतः उसे उस श्रणसे भूक्त होनेका यत्न करना चाहिये। वेदोंका स्वाध्याय करके श्रुतियोंके, यत्नके अनुष्ठानसे देवताओंके, प्राण्डसे पितरोंके तथा स्वागत-सत्कारसे अतिथियोंके श्रणसे छूटकारा होता है। इसी प्रकार वेद-वाणीके ध्वज-मनन, यज्ञरोप अन्नके भोजन तथा जीवोंकी रक्षा करनेसे मनुष्य अपने श्रणसे भूक्त होता है। पुत्रादि भृत्यवर्गके पालन-पोषणका आरम्भसे ही प्रवर्ध चाहिये; इससे उनके श्रणसे भी भूक्त हो जाती है।

श्रुति-मुनियोंके पास धन नहीं था, फिर भी वे

प्रयत्नसे ही सिद्ध हो गये। उन्होंने विधिपूर्वक अग्निहोत्र करके सिद्धि प्राप्त की थी। अस्ति, देवल, नारद, पर्वत, कदावीवान्, जमदग्नि, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, हरिश्चन्द्र, कुण्डधर तथा धृतराष्ट्र आदि महर्षियोंने एकाग्रचित्त होकर ऋग्वेदकी ऋचाओंसे विष्णुका स्तवन किया तथा उन्हींकी कृपासे तपत्या करके उत्तम सिद्धि पायी। जो पूजाके योग्य नहीं थे, वे भी विष्णुका स्तवन करके पूजनीय संत होकर उन्हींकी प्राप्त हो गये। इस लोकमें निन्दनीय आचरण करके किसीको भी अपने अभ्युदयकी आशा नहीं रखनी चाहिये। धर्मका पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है, वही सच्चा धन है। पापाचारसे प्राप्त होनेवाला धन तो धिक्कारके योग्य है। धनकी इच्छासे सनातन धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। राजेन्द्र ! जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, यही धर्मार्थी है और वही पुण्य करनेवालोंमें श्रेष्ठ है; क्योंकि सम्पूर्ण वेद (दक्षिण, आहवनीय तथा गार्हपत्य—इन) तीन अग्निर्षोमोंमें ही स्थित हैं। जिसका सदाचार कभी लुप्त नहीं होता, वह ब्राह्मण (अग्निहोत्र न करनेपर भी) अग्निहोत्री ही है। सदाचार सम्पादित होनेपर अग्निहोत्र न हो सके तो भी अच्छा है, किंतु सदाचारका त्याग करके केवल अग्निहोत्र करना कदापि कल्याणकारक नहीं है। अग्नि, आत्मा, माता, जन्म देनेवाले पिता तथा गुरु—इन सबकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। जो अभिमानका त्याग करके बृद्ध पुरुषोंकी सेवा करता, विद्वान् एवं कामनाहीन होकर सबको प्रेमभावसे देखाता, चालाकीसे रहित हो धर्मका आचरण करता और दूसरोंका दमन नहीं करता है, वह इस लोकमें श्रेष्ठ है तथा सत्युक्त भी उसका आदर करते हैं।

शूद्रके लिये तीनों वर्णोंकी सेवा ही उत्तम वृत्ति है। यदि यह प्रेमके साथ उसका पालन करे तो वह उसे धर्मिष्ठ बनाती है। मेरा तो ऐसा विचार है कि धर्मके जाननेवाले सत्युक्तोंके संसर्गमें रहना हर हालतमें अच्छा है, किंतु दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग किसी भी दशामें उत्तम नहीं है। साधु पुरुषोंके समीप रहनेसे नीच वर्णका मनुष्य भी प्रतिभाशाली हो जाता है। श्वेत वस्त्रको जैसे रंगमें रंगा जाता है, वंसा ही उसका रंग हो जाता है; इसी प्रकार वंसा सङ्ग किया जाता है, वंसा ही रंग अपने ऊपर सङ्गता है। इसलिये गुणोंमें ही अनुराग करना चाहिये, दोषोंमें नहीं; क्योंकि मनुष्योंका जीवन अनित्य और चञ्चल है। जो विद्वान् मुण्ड और दुःख दोनों अवस्थाओंमें राम कर्मका ही अनुष्ठान करता है, वही शास्त्रके सत्यको जानता है। धर्मके विपरीत कर्म यदि लोकमें बहुत साम्प्रदायिक हो तो भी बुद्धिमान् पुरुषको उसका सेवन नहीं

करना चाहिये; क्योंकि जससे अपना हित नहीं होता। जो राजा दूसरोंकी हजारों गौएँ छीनकर दान करता है और प्रजाकी रक्षा नहीं करता, वह नामनात्रके लिये ही दानी है, उसे उसका कुछ फल नहीं मिलता। वास्तवमें तो वह राजा नहीं, लुटेरा है। जो राजा प्रतिदिन ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार जितना हो सके उतना दान करता है, उसको उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। स्वयं ही ब्राह्मणके पास जाकर उसे संतुष्ट करते हुए जो दान दिया जाता है, वह सर्वोत्तम माना गया है। याचना करनेपर दिये हुए दानको विद्वानोंने मध्यम बताया है और अवहेलना तथा अश्रद्धाके साथ जो कुछ दिया जाता है, उस दानको सत्यवादी मुनि अधम कहते हैं। मनुष्य संसार-सागरमें डूब रहा है उसे नाना प्रकारके उपायोंद्वारा सदा इसके पार उतरनेका प्रयत्न करना चाहिये। जिस तरह भी बन्धनसे छुटकास मिले, वंसा उद्योग करना उचित है। ब्राह्मण इन्द्रियसंयमसे, क्षत्रिय युद्धमें विजय पानेसे, वैश्य धनसे और शूद्र सेवा-कार्यमें चतुराई रखनेसे शोभा पाता है।

ब्राह्मणके यहाँ प्रतिग्रहसे मिला हुआ, क्षत्रियके घर युद्धसे जीतकर लाया हुआ, वैश्यके पास न्यायपूर्वक (खेती आदिके) कमाया हुआ और शूद्रके यहाँ सेवासे प्राप्त हुआ थोड़ा भी धन हो तो उसे उत्तम माना गया है। उक्त धनका यदि धर्म-कार्यमें उपयोग किया जाय तो वह महान् फल देनेवाला होता है। ब्राह्मण यदि जीविकाके अभावमें क्षत्रिय अपना वैश्यके धर्मसे जीवन-निर्वाह करे तो पतित नहीं होता; किंतु जब वह शूद्रके धर्मको अपनाता है तो तत्काल पतित हो जाता है। जब शूद्र सेवावृत्तिसे जीविका न चला सके तो उसके लिये भी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्पकला आदिके जीवन-निर्वाह करनेकी आज्ञा है। रंगमञ्चपर नाचना या खेल दिखाना, बहुरूपियेका काम करना, मदिरा और मांस बेचकर जीविका चलाना तथा लोहे और चमड़ेकी विक्री करना—ये सब काम निन्दनीय हैं, शूद्र भी यदि पूर्व परम्परासे उसके घरमें ये काम न होते आये हों तो स्वयं इनका आरम्भ न करे और जिसके यहाँ पहलेसे इनके करनेकी प्रथा हो वह भी छोड़ दे तो महान् धर्म होता है। यदि सिद्धि प्राप्त करनेके पश्चात् कोई पुरुष धर्ममें आकर पापाचरण करने लगे तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिये। पुराणोंमें सुना जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य संयमी, धार्मिक और न्यायका अनुसरण करनेवाले थे। उस समय अपराधियोंकी धिक्कार-मात्रका ही दण्ड दिया जाता था। संसारके मनुष्योंमें सदा धर्मकी ही प्रशंसा होती थी। धर्ममें बढ़े-चढ़े लोग सद्गुणोंका ही सेवन करते थे; किंतु धर्मका यह प्रचार अनुरासे नहीं

सहा गया। वे प्रमाराः बड़कर सम्पूर्ण प्रजाके शरीरमें ध्यापत हो गये। तब प्रजाओंमें धर्मको मट्ट करनेवाले द्रपं (धर्मंड) का प्रादुर्भाव हुआ। द्रपंके बाद श्रेष्ठ उत्पन्न हुआ। श्रेष्ठसे आक्रान्त होनेपर उनकी सजा छूट गयी और विनययुक्त सदाचारका लोप हो गया। फिर मोह प्रकट हुआ। मोहसे अब उनमें पहलेकी भाँति विचाररहित न रही और सब लोप अपने-अपने सुलके लिये दूसरोंको कष्ट पहुँचाने लगे। अब उन्हें राहपर लानेमें धिक्कारका दण्ड सफल न हो सका। सभी मनुष्य देवता और ब्राह्मणोंका अपमान करके मनमाना व्यवहार करने लगे।

मह अवस्था आ जानेपर सम्पूर्ण देवता भगवान् शंकरकी शरण गये। तब शिवजीने देवताओंके तेजसे प्रबल हुए एक ही बाणके द्वारा तीन नगरोंसहित आकाशमें विचरनेवाले समस्त असुरोंको मारकर पृथ्वीपर गिरा दिया। उन असुरोंका स्वामी भयंकर आकारवाला तथा भीषण पराक्रम दिखानेवाला था। देवताओंको उससे बड़ा भय होता था; किंतु भगवान् शूलपाणिने उसे भी मौतके घाट उतार दिया। उसके मारे जानेपर सब मनुष्य प्रकृतिस्य ही गये तथा उन्हें पूर्ववत् वेद और शास्त्रोंका ज्ञान हो गया। तत्परचात् सप्तर्षियोंने इन्द्रको स्वयंमें देवताओंके राज्यपर अभिषिक्त किया और वे स्वयं मनुष्योंके शासनकार्यमें लग गये। सप्तर्षियोंके बाद विष्णु नामक राजा भूमण्डलका स्वामी हुआ तथा और भी बहुत-से क्षत्रिय छोटे-छोटे मण्डलोंके अधिपति हुए।

इसलिये मैं शास्त्रके अनुसार खूब सोच-विचारकर कहता हूँ, मनुष्यको सिद्धि तो अवश्य प्राप्त करने चाहिये, किंतु हिसात्मक कर्म त्याग देना चाहिये। बुद्धिमान् धर्म करनेके लिये न्यायका त्याग कर पार्ष्णिधित मार्गसे धनका संग्रह न करे; क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता। राजन्! तुम भी इसी तरह जितेन्द्रिय क्षत्रिय बनकर बन्धु-बान्धवोंसे प्रेम रखते हुए प्रजा, भृत्य और पुत्रोंका स्वधर्मके अनुसार पालन करो। इष्ट-अनिष्टकी प्राप्ति, धैर और प्रेमका अनुभव करते-करते जीवके हज़ारों जन्म बीत जाते हैं। इसलिये तुम (यदि कल्याण चाहते हो तो) सद्गुणोंमें ही अनुराग करो, दोषोंमें नहीं। महाराज! मनुष्योंमें जैसी धर्म-अधर्मकी प्रवृत्ति होती है, वैसी मनुष्येतर प्राणियोंमें नहीं होती। धर्मपरायण विद्वान् सबको आत्मभावसे देखता हुआ संसारमें विचरता रहे। किसी भी जीवको हिसा न करे। जब मनुष्यका मन कामना और संस्कारोंसे रहित तथा असत्पसे दूर हो जाता है, उस समय वह कल्याणको प्राप्त होता है।

गृहस्थाश्रममें मनुष्यका गौ, खेतों-बारी, धन-दौलत,

स्त्री-पुत्र और भृत्येति सम्बन्ध हो जाता है और इस प्रकार प्रवृत्तिमार्गमें रहकर वह प्रतिदिन इन वस्तुओंको देखता है; किंतु इनकी अनित्यताको नहीं जानता, इसलिये उसके मनमें राग और द्वेष बढ़ने लगते हैं। राग-द्वेषके बशीभूत होकर जब मनुष्य द्रव्यमें आसक्त हो जाता है, तो मोहकी कन्या रति आकर उसे अपने बशमें कर लेती है। रतिकी उपासना करनेवाले सभी लोग भोगीको ही कृतार्थ समझते हैं और रतिके द्वारा जो विषय-सुख प्राप्त होता है, उससे बड़कर वे दूसरा कोई सुख नहीं मानते। फिर उनके मनपर लोभका अधिकार हो जाता है और वे आसक्तिवश अपने परिजनोंकी संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसके बाद उनके पालन-पोषणके लिये धनकी इच्छा होती है। यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक काम करना पाप है, फिर भी वह धनके लिये उसे कर ही डालता है तथा बात-बच्चोंके स्नेहमें डूबे रहनेके कारण, जब उनमेंसे कोई मर जाता है तो उनके लिये वह बारांवार संतप्त होता है। धनसे जब लोकमें सम्मान बढ़ता है तो वह सदा इस बातका प्रयत्न करता है कि कभी अपनी हेठो न होने पावे। भोग-विलासकी सामर्थियोंसे सम्पन्न होनेके लिये जो कुछ आवश्यक समझता है, उसे ही वह करता है और उसीसे एक दिन नष्ट हो जाता है। वास्तवमें जो शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं और उनसे सुख पानेकी इच्छा नहीं रखते, उन समत्वबुद्धिसे युक्त ब्रह्मवादी पुरुषोंको ही सनातन पदकी प्राप्ति होती है। संसारी जीवोंको तो जब उनके स्नेहके आधारभूत स्त्री-पुत्र आदिका नाश हो जाता, धन चला जाता और रोग तथा चिन्तासे कष्ट उठाना पड़ता है, तभी बंराग्य होता है। बंराग्यसे आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा होती है, जिज्ञासासे शास्त्रोंके स्वाध्यायमें मन लगता है, स्वाध्यायसे उसके मनमें यह बात बँड जाती है कि तप ही कल्याणका साधन है। राजन्! संसारमें ऐसा विवेकी मनुष्य दुर्लभ है, जो स्त्री-पुत्र आदि प्रेय-सुखोंकी ओरसे उदासीन होकर (श्रेयकी प्राप्तिके लिये) तपमें प्रवृत्त होनेका ही निश्चय करता है। तपमें सबका अधिकार है, हीन वर्णोंके लिये भी (अपने अधिकारके अनुसार) तपका विधान है; तप ही जितेन्द्रिय एवं मनोनिर्ग्रह-सम्पन्न पुरुषोंके स्वर्गकी राहपर लानेवाला है। पूर्वकालमें प्रजापतिने ब्रह्मपरायण और व्रतमें स्थित होकर तपके द्वारा ही संसारको सृष्टि की थी। आदित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, अश्विनोक्तुमार, विश्वेदेव, साध्य, पितर, मरुद्गण, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, सिद्ध तथा दूसरे स्वर्गवासी देवता तपसे ही सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जिन (मरीचि आदि) ब्राह्मणोंको उत्पन्न किया था, वे तपके ही प्रभावसे पृथ्वी और आकाशको पवित्र करते हुए सर्वत्र सिद्धि ।

मर्त्यलोकमें जो गृहस्थ राजे-महाराजे उत्तम कुलोंमें उत्पन्न दोगे जाते हैं, वह सब उनकी तपस्याका ही फल है। त्रिभुवनमें कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, जो तपस्यासे दुष्प्राप्य हो।

अतः मनुष्य सुखमें हो या दुःखमें; मन और बुद्धिसे शास्त्रका विचार करके लोभका परित्याग कर दे। असंतोषसे दुःख होता है। लोभसे मन और इन्द्रियोंमें भ्रान्ति होती है। भ्रान्ति होनेपर अस्वप्नरहित विद्याकी भांति मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धिका नाश हो जानेपर वह विवेक को चँढता है; इसलिये दुःखकी अवस्थामें मनुष्यको उग्र तपस्या करनी चाहिये। जो अपनेको प्रिय जान पड़ता है, उसे गुण कहते हैं तथा जो मनके प्रतिकूल होता है, वह दुःख कहलाता है। तपस्या करनेसे सुख और न करनेसे दुःख होता है। इस प्रकार तप करने और न करनेका जो फल है, उसको तुम भलीभाँति समझ लो। जो पापरहित तपका अनुष्ठान करता है, वह सदा कल्याणका भागी होता है तथा जिस पुरुषको धर्म, तप और दान करनेकी इच्छा नहीं होती, वह पापका ही आचरण करता और नरकमें पड़ता है। मनुष्य सुखमें हो या दुःखमें, जो सदाचारसे कभी विचलित नहीं होता, वही शास्त्रदर्शी माना जाता है। वाणको धनुषसे छूटकर

पृथ्वीपर गिरनेमें जितनी वेर लगती है, उतना ही समय स्पर्शोन्द्रिय, रसना, नेत्र, नासिका और कानके विषयोंका सुख अनुभव करनेमें लगता है तथा जब वह सुख नष्ट हो जाता है तो उसके लिये मनमें बड़ी वेदना होती है। इतनेपर भी अज्ञानी पुरुष (विषयोंके सुखमें ही लिप्त रहते हैं; वे) सर्वोत्तम मोक्ष-सुखकी प्रशंसा नहीं करते। सदा धर्म-पालन करनेवाले मनुष्यको कभी धन और भोगोंकी कमी नहीं होती; अतः गृहस्थ पुरुषको बिना प्रयत्नके प्राप्त हुए विषयका ही सेवन करना चाहिये। मेरे विचारसे प्रयत्न तो स्वधर्मोपार्जनके लिये ही करना उचित है। जब उत्तम कुलमें उत्पन्न, सम्मानित तथा शास्त्रके अर्थको जाननेवाले पुरुषोंका और अराभयताके कारण कर्म-धर्मसे रहित एवं आत्मतत्त्वसे अनभिज्ञ मनुष्योंका भी लौकिक कर्म नष्ट हो जाता है तो तपके सिवा दूसरा कोई कर्म नहीं है, जो उन्हें अक्षय फल देनेवाला हो। गृहस्थको सर्वथा अपने कर्तव्यका निश्चय करके स्वधर्मका पालन करते हुए कुशलतापूर्वक यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। जैसे सम्पूर्ण नदियाँ और नव समुद्रमें जाकर मिलते हैं, उसी प्रकार समस्त आश्रमी गृहस्थके ही सहारे जीवन धारण करते हैं।

राजा जनकके भिन्न-भिन्न प्रश्न और पराशरजीद्वारा उनके समाधान (पराशर-गीता)

राजा जनकाने कहा—भगवन् ! अब आप पहले मुझे यणोंके विशेष धर्म बतलाइये; फिर सामान्य धर्मोंका भी वर्णन कीजिये; क्योंकि आप सब विषयोंका प्रतिपादन करनेमें प्रभान हैं।

पराशरजीने कहा—राजन् ! दान लेना, यज्ञ कराना और विद्या पढ़ाना—ये ब्राह्मणके विशेष धर्म हैं। प्रजाकी रक्षा करना क्षत्रियके लिये उत्तम है। ऐतौ, गौरधा और व्यापार—ये वैश्यके प्रधान कर्म हैं तथा द्विजातियोंकी सेवा शूद्रका मुख्य धर्म है। ये यणोंके विशेष धर्म बतलाये गये हैं; अब इनके सामान्य धर्मोंका वर्णन विस्तारके साथ सुनो। दया, अहिंसा, सावधानी, दान, श्राद्धकर्म, अतिथि-सत्कार, सत्य, अश्रोध, अपनी ही पत्नीमें संतुष्ट रहना, पयिन्नता रखना, किसीके दोष न देना, आत्मज्ञान तथा सहनशीलता—ये सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य—इन तीन यणोंको द्विजाति कहते हैं; उपर्युक्त धर्मोंमें इन तीनोंका सामान्य अधिकार है। उक्त तीनों वर्ण विपरीत कर्मका आचरण

करनेपर नीचे गिरते हैं और अपने वर्णोचित कर्ममें स्थित रहकर उन्नति प्राप्त करते हैं। शूद्र-जातिके लिये किसी वैदिक संस्कारका विधान नहीं है। उसे वैदिक कर्मोंके अनुष्ठानका भी अधिकार नहीं है; किंतु पूर्ववित साधारण धर्मोंका उसके लिये भी निषेध नहीं किया गया है। हीन वर्णके मनुष्य यदि अपना उद्धार करना चाहें तो सदाचारका पालन करते हुए आत्माको उन्नत बनानेवाली समस्त क्रियाओंका अनुष्ठान करें; किंतु वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण न करें—ऐसा करनेसे वे दोषके भागी नहीं होते। इतरजातीय मनुष्य भी ज्यों-ज्यों सदाचारका अनुष्ठान करते हैं, त्यों-ही-त्यों सुख पाकर इह-लोक और परलोकमें भी आनन्द भोगते हैं।

राजा जनकने पूछा—महामुने ! मनुष्य अपने कर्मसे दोषका भागी होता है या जातिसे ? मेरे मनमें यह संवेद उत्पन्न हुआ है; आप इसका समाधान कीजिये।

पराशरजीने कहा—महाराज ! इसमें संवेद नहीं कि कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं; किंतु इसमें जो

विशेष बात है, उसे बताता हूँ, मुझे—जाति और कर्ममेंसे किसीका भी आशय लेकर बुरे कर्मोंका सेवन नहीं करना चाहिये। जातिसे दूषित (चाण्डाल आदि) होकर भी जो पाप नहीं करता, वह पुरुष दोषका प्राणी नहीं होता। किन्तु जो जातिसे उत्तम होकर भी निन्द्यके योग्य कर्म करता है, उसका यह कर्म उसको दूषित बना देता है; अतः नीच जातिकी अपेक्षा नीच कर्म ही बुरा है।

जनकने पूछा—द्विजश्रेष्ठ! इस संसारमें कौन-कौन-से ऐसे धर्मानुकूल कर्म हैं, जिनसे कभी किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं होती।

पराशरजीने कहा—महाराज! जो कर्म अहिंसाके अनुकूल तथा सदा मनुष्यकी रक्षा करनेवाले हैं, उन्हें बताता हूँ, मुझे—जो लोग अग्निहोत्रको त्याग संन्यास धारण कर उदासीनभावसे सब कुछ देखते रहते हैं, वे सब प्रकारकी चिन्ताओंसे रहित हो क्रमशः कल्याणपथपर आ जाते हैं और प्रथम, विनय, इन्द्रियसंघम तथा उत्तम व्रतोंसे युक्त हो समस्त कर्मोंका परित्याग करके जरा-भूतयुसे रहित अविनाशी पदको प्राप्त होते हैं। राजन्! सभी वर्णके लोग यदि हिंसाप्रधान कर्मोंको त्यागकर धर्मका पालन और सत्यमाधन करने लगें तो वे निःसंदेह स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं।

जो पिता, मित्र, गुरु तथा धर्मपत्नीके प्रति यथायोग्य प्रेम नहीं रखते, उन गुणहीन मनुष्योंको पिता आदिसे कोई सुख नहीं मिलता; परंतु जो उनके अनन्य भक्त, प्रियवादी, हितसाधनमें तत्पर और उनके वशमें रहनेवाले हैं, उन्हें पिता आदिके सेवनका यथायोग्य फल अवश्य प्राप्त होता है। पिता मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ देवता है, ज्ञानको प्राप्ति सबसे बड़ा साधन है तथा जिन्होंने इन्द्रियों और उनके वियर्थोंको जीत लिया है, वे ही परमात्माको प्राप्त करते हैं। क्षत्रियका बालक यदि रणाङ्गणमें धामल होकर बाणोंकी ब्रितापर मत्स्य होता है तो वह देवदुर्लभ लोकमें जाता है और वहाँ आनन्द-पूर्वक रहकर स्वर्गीय सुख भोगता है। राजन्! जो युद्धमें थका हुआ हो, मयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाल दिया हो, जो रोता हो, पीठ बिसाकर भाग रहा हो, जिसके पास युद्धका कोई भी सामान न रह गया हो, जो युद्धका उद्योग छोड़ चुका हो, रोगी हो, प्राणोंकी भिक्षा चाहता हो तथा बालक या बूढ़ हो; उसका वध नहीं करना चाहिये। हाँ, जिसके पास लड़ाईका सामान हो, जो युद्ध करनेके लिये तैयार हो और अपने बराबरका हो, उस क्षत्रियको जीतनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये। अपने समान या अपनेसे बड़े वीरके हाथसे मरना अच्छा माना गया है। अपनेसे हीन, कातर

अथवा दीन पुरुषके हाथ होनेवाली मृत्यु निन्दित है; क्योंकि पाप करनेवाले पापी और अधम श्रेणीके मनुष्यके हाथसे जो वध होता है, वह पापरूप ही माना जाता है तथा वह नरकमें गिरानेवाला है—यही शास्त्रका निश्चय है। मौतके वशमें पड़े हुएको कोई बचा नहीं सकता तथा जिसकी आयु शेष है, उसे कोई मार भी नहीं सकता। मरनेकी इच्छावाले गृहस्थोंके लिये तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गयी है, जो किसी पवित्र नदीके तटपर शुभकर्मोंका अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो।

संसारके समस्त प्राणियोंमें चलने-फिरनेवाले जीव श्रेष्ठ माने गये हैं। इनमें भी मनुष्य और मनुष्योंमें भी द्विज उत्तम हैं। द्विजोंमें बुद्धिमान् तथा बुद्धिदानोंमें भी विचार-कुशल श्रेष्ठ समझे जाते हैं। उनमें भी जो अहंकाररहित हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्यके उत्तरायण होनेपर उत्तम नक्षत्र तथा पवित्र मूर्तमें जिज्ञाकी मृत्यु हो, उसे पुण्यत्मा जानना चाहिये। वह किसीको भी कष्ट न देकर (प्रायश्चित्तके द्वारा) अपने पापको नष्ट कर डालता और शपितके अनुसार शुभकर्म करके स्वेच्छासे मृत्युको अङ्गीकार करता है। नियम से लेते, गर्लमें कांति लगाते, आयमें जलनेसे, सुट्टेके हाथसे तथा दाढ़वाले पशुओंके आघातसे जो वध होता है, वह भी अधम श्रेणीका माना जाता है। पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य इस तरहके उपायोंसे प्राण नहीं देते तथा ऐसे ही दूसरे-दूसरे अधम उपायोंसे भी उनकी मृत्यु नहीं होती। राजन्! पुण्यात्मा पुद्गलके प्राण ब्रह्मरूपको भेद कर निकलते हैं। जिनमें पुण्यका भाग आधा ही है अर्थात् जो पाप-मुष्य दोनोंसे युक्त हैं, उनके प्राण मध्य द्वार (मूल, नेत्र आदि) से बाहर होते हैं तथा जिन्होंने केवल पाप ही किया है, उनके प्राण अधोमार्ग (गुदा या शिर) से निकलते हैं।

पुद्गलका एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है, वह है अज्ञान; जिससे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यन्त घोर और कठोर कर्म करने लगता है। उस शत्रुको पराजित करनेमें वही समर्थ हो सकता है, जो वेदोक्त धर्मके पालनपूर्वक बृद्ध पुद्गलोंकी सेवा करके प्रज्ञा (स्मि-बुद्धि) प्राप्त कर ले; क्योंकि अज्ञानमय शत्रुको जीतना प्रयत्नसाध्य है, वह प्रज्ञास्वप्न बाणकी चोट खाकर ही नष्ट होता है। द्विजको पहले ब्रह्मचर्य-आश्रममें रहकर वेदाध्ययन एवं तपस्या करनी चाहिये। फिर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके अपनी शक्तिके अनुसार इन्द्रियसंयमपूर्वक पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करना चाहिये। तत्परवात् अपने पुत्रकी धर-वारकी रक्षामें नियतकर कल्याण-भागमें स्थित हो धर्म-पालनकी इच्छासे वनमें प्रवेश करना चाहिये।

राजन् ! मनुष्यकी योनि ही वह अद्वितीय योनि है, जिसे पाकर शुभकर्मोंके अनुष्ठानसे आत्माका उद्धार किया जा सकता है। 'कौन-सा ऐसा उपाय करें, जिससे हमें इस मनुष्ययोनिसे नीचे न गिरना पड़े' यह सोचकर और वैदिक प्रमाणोंपर विचार करके सब लोगोंको धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर भी जो दूसरोंसे द्वेष और धर्मका अनादर करता है तथा कामनाओंमें आसक्त हो जाता है, वह महान् लाभसे वञ्चित होता है। जो मनुष्य समस्त प्राणियोंको स्नेहभरी दृष्टिसे देखता है तथा सब लोगोंको सान्त्वना और अन्न देकर सबसे भीठे वचन बोलकर सन्नीके सुख-दुःखमें समान-भावसे हाथ बँटाता है, वह परलोकमें सम्मानित स्थान प्राप्त करता है। राजन् ! सरस्वती नदी, नैमिषारण्यक्षेत्र, पुष्करक्षेत्र तथा और भी जो पृथ्वीके पावन तीर्थ हैं, उनमें जाकर दान और त्याग करे, शान्तभावसे रहे तथा तपस्या और तीर्थके जलसे अपने शरीरको शुद्धि करे। मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार इष्टि, पुष्टि (शान्तिकर्म), यजन, याजन, दान, पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान तथा श्राद्ध आदि जो भी उत्तम कार्य करता है, वह सब यह अपने ही लिये करता है। धर्मशास्त्र और षडङ्गसहित वेद पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषके कल्याणके ही लिये धर्मका उपदेश करते हैं।

भीष्मजी कहते हैं—महात्मा पराशर मुनिने जब मिथिलानरेशको इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया।

राजा जनकने पूछा—बहान् ! श्रेयका साधन क्या है ? उत्तम गति कौन-सी है ? कौन-सा कर्म नष्ट नहीं होता तथा फर्हा जानेपर जीवको यहाँ फिर लौटना नहीं पड़ता ?

पराशरजीने कहा—राजन् ! आसक्तिका अभाव तथा ज्ञान—ये श्रेयकी जड़ हैं। ज्ञानसे प्राप्त होनेवाली गति ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्रको दिया हुआ दान—ये कभी नष्ट नहीं होते। जो अधर्ममय बन्धनका उच्छेद करके धर्ममें अनुरक्त हो जाता और सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयदान कर देता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। जो एक हजार गौ तथा एक सौ घोड़े दान करता है तथा जो सब भूतोंको अभयदान देता है—इनमें अभयदान करनेवाला गौ और अश्वदान करनेवालेसे सदा बड़ा-चढ़ा रहता है। विशुद्ध बुद्धिवाला पुरुष विषयोंके बीचमें रहता हुआ भी (असङ्ग होनेके कारण) उनमें नहीं रहनेके बराबर है; किन्तु जिसकी बुद्धि दूषित होती है, वह विषयोंके निकट न होनेपर भी सदा जर्होंमें रहता है। जैसे पानी कमलके

पत्तोंमें नहीं सटता, उसी प्रकार अधर्म ज्ञानी पुरुषको नहीं लिप्त कर सकता; किन्तु जिस तरह लाह काठमें अधिक चिपट जाती है, वैसे ही पाप अज्ञानी मनुष्यको विशेषरूपसे बाँधता है। अधर्म केवल फलप्रदानके अवसरको प्रतीक्षा करता रहता है, वह कर्ताका त्याग नहीं करता। कर्ताको समय आनेपर उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो प्रमादवश ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पापोंपर विचार नहीं करता तथा शुभ और अशुभमें आसक्त रहता है, उसे महान् भयकी प्राप्ति होती है। परन्तु जो वीतराग होकर क्रोधको जीत लेता और सवाचारका पालन करता है, वह विषयोंमें रहकर भी पाप नहीं करता। जैसे प्रवाहके सामने सुदृढ़ बाँध बाँध देनेपर जल बढ़ता है, उसी प्रकार जो धर्मकी बाँध बाँधकर मर्यादाके भीतर आबद्ध रहता है, उसका शक्ति-संचय बढ़ता ही रहता है, उसे कभी दुःख नहीं उठाना पड़ता। जिस प्रकार शुद्ध सूर्यकान्तमणि सूर्यके तेजको ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार साधक समाधिके द्वारा ब्रह्मके स्वरूपको ग्रहण करता है। जैसे तिलका तेल मिन्न-भिन्न प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंसे वासित होकर अत्यन्त मनोरम गन्ध ग्रहण करता है, वैसे ही शुद्धचित्त पुरुषोंका सत्त्वगुण सत्पुरुषोंके सङ्गके अनुसार बढ़ता है; परन्तु जिसकी बुद्धि विषयोंमें आसक्त हो जाती है, उसे किसी तरह अपने हितका ज्ञान नहीं रहता। जैसे मछली काँटेमें गुंथे हुए मांसपर आकृष्ट होती है, उसी प्रकार वह सब प्रकारकी वासनाओंसे वासित चित्तके द्वारा विषयोंकी ओर आकृष्ट होकर दुःख भोगता है। पुरुषके लिये धर्म करनेका कोई खास समय नहीं नियत है; क्योंकि मृत्यु किसीकी बाट नहीं जोहती। जब मनुष्य हमेशा मौतके मुखमें ही है, तो सदा धर्मका आचरण करते रहना ही उसके लिये शोभाकी बात है। जैसे अंधा प्रतिदिनके अम्घासे ही सावधानीके साथ बाहरसे अपने घरमें आ जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य योगयुक्त चित्तके द्वारा उस परम गतिको प्राप्त कर लेता है। जन्ममें मृत्यु और मृत्युमें जन्म निहित है। जो मोक्ष-धर्मको नहीं जानता, वह अज्ञानी संसारमें आबद्ध होकर जन्म-मृत्युके चक्रमें घूमता रहता है। ज्ञानमार्गसे चलनेवालेको इहलोकमें भी सुख मिलता है और परलोकमें भी। विस्तार (अर्थात् अग्निहोत्र और बृहत्यज-यागादि कर्म) बतेशसाध्य हैं तथा संक्षेप (यानी त्याग आदि साधन) सुखपूर्वक होनेवाले हैं। इनमेंसे कर्मविस्तार तो परार्थ हैं—अनात्मभूत स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्ति करानेवाले हैं; किन्तु त्याग (संक्षेप) आत्माका कल्याण करनेवाला माना गया है।

हुई कीचड़ तुरंत धूल जाती है, उसी प्रकार त्यागी पुरुषका आत्मा मनके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। मन आत्माको योगकी ओर ले जाता है और योगी इस मनको योगयुक्त (आत्मामें लीन) करता है। इस प्रकार जब वह योगमें सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे परमात्माका साक्षात्कार होने लगता है। जो परके लिये अर्थात् इन बाह्य इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये विषय-भोगोंमें प्रवृत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य समझता है, वह अपने वास्तविक कर्तव्यसे च्युत हो जाता है। जो विषय-भोगोंमें आसक्त है, वह क्वापि मुक्त नहीं हो सकता। किन्तु जो भोगोंको त्याग देता है, वही मुक्त होनेका निरचय करता है। जैसे जन्मका अंधा रास्तेको नहीं देखता, वैसे ही शिरनोदरपररायण एवं अज्ञानसे आवृत जीव मायाहृष कुहासासे आच्छन्न होनेके कारण मोक्षके मार्गको नहीं समझ पाता। जैसे बंश्य समुद्रमार्गसे व्यापार करने जाकर अपने मूलघनके अनुसार इष्य कमाकर लाता है, उसी प्रकार संसार-सागरमें व्यापार करनेवाला जीव अपने कर्म और विज्ञानके अनुरूप उत्तम गति पाता है। दिन और रात्रिमय संसारमें ब्रह्मापाका रूप धारण करके धूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणियोंको उसी प्रकार छाती रहती है, जैसे साँप हवा पीया करता है। जीव जगत्में जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्मोंका ही फल भोगता है। पूर्वजन्ममें कुछ किये बिना यहाँ किसीको इष्ट या अनिष्टको प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य सोता हो, बंठा हो, चलता हो या विषयभोगमें लगा हो, उसके शुभाशुभ कर्म हर समय साथ लगे रहते हैं। बीच

समुद्रसे किनारे पहुँचकर फिर कोई उसमें तैरनेका साहस नहीं करता, उसी प्रकार संसार-सागरसे पार हुए जीवका फिर उसमें पड़ना असम्भव दिखायी देता है। जैसे समुद्रमें सब ओरसे बहुत-सी नदियाँ आकर मिलती हैं, उसी प्रकार मन योगके वशीभूत होकर मूलप्रकृतिमें लीन हो जाता है।

जिनका मन माना प्रकारके स्नेहबन्धनोंमें जकड़ा हुआ है, वे अज्ञानके वशमें पड़े हुए जीव बालके मकानकी तरह बहकर नष्ट हो जाते हैं। जो वेहधारी इस शरीरको ही घर और बाहर—भीतरकी पवित्रताको ही तीर्थ समझकर ज्ञानमार्गसे चलता है, उसे इस लोक और परलोकमें भी सुख मिलता है। कोई-न-कोई संकल्प (मनोरथ) लेकर ही लोग मित्र बनते हैं, कुटुम्बीलोग भी किसी हेतुसे ही-नाता रखते हैं, और तो ब्या, स्त्री, पुत्र और सेवक भी अपने धनके ही भूले होते हैं। माता-पिता भी किसीको कुछ नहीं देते। अपना किया हुआ दान ही परलोकके मार्गमें पायेय (राहलच) का काम देता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मका ही फल भोगता है। पूर्वजन्मके किये हुए सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्म जीवका अनुसरण करते हैं। कर्मफलको उपस्थित जानकर अन्तरात्मा अपनी बुद्धिको तदनुकूल प्रेरणा देता है। जो पूर्ण उद्योगका सहारा लेकर तदनुकूल सहायकोंका संग्रह करता है, उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! ज्ञानी महात्मा पराशर-मुनिके मुल्लसे इस यथार्थ उपदेशको सुनकर धर्मज्ञानमें श्रेष्ठ राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए।

साध्यगणोंको हंसका उपदेश

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! संसारमें बहुत-से विद्वान् सत्य, दम, क्षमा और प्रज्ञाकी प्रशंसा करते हैं; इस विषयमें आपका कैसा विचार है?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! इस विषयमें साध्य-गणोंका हंसके साथ जो संवाद हुआ था, वही पुराणा इतिहास में सुम्हें सुना रहा है। एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति हंसका स्वरूप धारण करके तीनों लोकोंमें विचर रहे थे। धूमते-धूमते वे साध्यगणोंके पास पहुँचे। उस समय साध्योंने उनसे

कहा—‘हंस! हमलोग साध्यदेवता हैं और आपसे मोक्षार्थ-के विषयमें प्रश्न करना चाहते हैं; क्योंकि आप मोक्षतत्त्वके ज्ञाता हैं। महात्मन्! हमने सुना है, आप पण्डित और धीर वक्ता हैं। आपकी उत्तम वाणी (अपवाद कीर्ति) का सर्वत्र प्रचार है। इसलिये पूछते हैं, आपके मतमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? किसमें आपका मन रमता है? पतिराज! समस्त कार्योंमेंसे जिस एक कार्यको आप सबसे उत्तम समझते हैं तथा जिसके करनेसे जीवको सब प्रकारके बन्धनोंसे शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसीका हमें उपदेश कीजिए।



हंसने कहा—अमृत पीनेवाले देवताओ ! मैं तो सुनता हूँ—तप, इन्द्रियसंयम, सत्यभाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम हैं। हृदयकी गाँठें खोलकर प्रिय और अप्रियको अपने वशमें करे (अर्थात् उनके लिये हर्ष और विषाद न करे)। किसीके मर्ममें आघात न पहुँचावे, दूसरोंसे निष्ठुर बात न बोले, नीच मनुष्यसे शास्त्रका रहस्य न समझे तथा जिसे सुनकर औरोंको उद्वेग हो ऐसी नरकमें डालनेवाली अमङ्गलमयी बात भी न कहे। वचनरूपी वाण जब मुँहसे निकल पड़ते हैं तो उनकी चोट खाकर मनुष्य रात-दिन शोकमें डूबा रहता है। वे दूसरोंके मर्मपर ही आघात पहुँचाते हैं, इसलिये विद्वान् पुरुषको किसीपर वाग्वाणका प्रयोग नहीं करना चाहिये। दूसरा कोई भी यदि विद्वान्को फटुवचनरूपी याणोंसे सूच घायल करे तो भी उसे शान्त हो रहना चाहिये। दूसरोंके क्रोध करनेपर भी जो बदलेमें प्रसन्न हो रहता है वह उनके पुण्यको ग्रहण कर लेता है। जो जगत्में निन्दा करानेवाले और आवेशमें डालनेवाले प्रज्वलित क्रोधको रोक लेता है, जिसका चित्त शान्त एवं प्रसन्न रहता है तथा जो दूसरोंके दोष नहीं देखता, यह पुरुष अपनेसे द्वेष रखनेवालोंके पुण्य ले लेता है। मुझे कोई गाली दे तो भी चुप रह जाता हूँ, कोई मारे तो भी उसे क्षमा करता हूँ। आर्षजन क्षमा, सत्य, सरलभाव और दयाको ही श्रेष्ठ बताते हैं। वेदाध्ययनका फल है सत्यभाषण, उसका फल है इन्द्रियसंयम और

इन्द्रियसंयमका फल है मोक्ष। यही सम्पूर्ण शास्त्रोंका आदेश है। जो वाणी, मन, क्रोध, तृष्णा, उदर तथा जननेन्द्रियके प्रचण्ड वेगको सह लेता है, उसीको मैं ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ। क्रोधीसे क्रोध न करनेवाला, असहनशीलसे सहनशील, अमानवसे मानव तथा अज्ञानीसे ज्ञानी श्रेष्ठ है। जो दूसरे की गाली सुनकर भी बदलेमें उसे गाली नहीं देता, उस क्षमाशील मनुष्यका दबा हुआ क्रोध ही गाली देनेवालेको भस्म कर सकता है और उसके पुण्यको भी ले लेता है। दूसरेके मुँहसे अपने लिये कड़वी बात सुनकर भी जो उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसीकी मार खाकर भी धर्मके कारण बदलेमें न तो उसे मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता है, उस महात्मासे मिलनेके लिये देवता भी सदा लालायित रहते हैं। पाप करनेवाला अपराधी अवस्थामें अपनेसे बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिये। ऐसा करनेवाला पुरुष परम सिद्धिको प्राप्त होगा।

यद्यपि मैं सब प्रकारसे परिपूर्ण हूँ (मुझे कुछ जानना या पाना बाकी नहीं है) तो भी श्रेष्ठ पुरुषोंकी उपासना (सत्सङ्ग) करता हूँ। मुझपर न तृष्णाका जोर चलता है, न क्रोधका। मैं लोभवश धर्मका अतिक्रमण नहीं करता और न विषयोंकी इच्छासे ही कहीं आता-जाता हूँ। कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं उसे शाप नहीं देता; मैं इन्द्रियसंयमको ही मोक्षका द्वार मानता हूँ। इस समय तुम लोगोंको एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो—मनुष्ययोनिसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम योनि नहीं है। जिस प्रकार चन्द्रमा बादलोंके आवरणसे अलग होकर प्रकाशमान दिखायी देता है, उसी प्रकार पापोंसे मुक्त होकर शुद्धचित्त हुआ धीर पुरुष धर्मपूर्वक कालकी प्रतीक्षा करता रहे, इससे वह सिद्धिको प्राप्त होता है। जो अपने मनको वशमें करके आधार-स्तम्भकी भाँति सबके आदरका पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नतायुक्त मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देवभावको प्राप्त हो जाता है। किसीसे डाह रखनेवाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषोंका वर्णन करना चाहते हैं, उस तरह उसके कल्याणकारी गुणोंका बखान करना नहीं चाहते। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर परमात्माके जप तथा चिन्तनमें लगे रहते हैं, वह वेदाध्ययन, तप और त्याग—इन सबके फलको पा जाता है।

इसलिये समझदार पुरुषको चाहिये कि वह कटुवचन फहने और अनादर करनेवाले अज्ञानियोंको उनके दोष बताकर समझानेका प्रयत्न न करे, न दूसरोंको बढ़ावा दे और न

अपनी हिंसा करे। विद्वान्को चाहिये कि वह अपमान पाकर अमृत पीनेकी भांति संतुष्ट हो; क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुखसे सोता है, किन्तु अपमान करनेवालेका नाश हो जाता है। श्रेयी मनुष्य जो यज्ञ करता, दान देता और तपस्या अथवा हवन करता है, उन सब कर्मोंके फलकी यमराज हर सेते हैं। क्रोध करनेवालेका सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। देवताओं। जो पुरुष अपने उपस्थ, उदर, दोनों हाथ और बाणी—इन चार द्वारोंको पापसे बचाये रखता है, वही धर्मज्ञ है। जो सत्य, इन्द्रियसंयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमाका विशेष सेवन करता है, स्वाध्यायमें लगा रहता है, दूसरोंकी वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकान्तमें निवास करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा अपनी माताके चारों स्तनोंका पान करता है, उसी प्रकार मनुष्यको उपयुक्त समस्त सद्गुणोंका सेवन करना चाहिये। मेरी समझमें सत्यसे बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं चारों ओर घूमकर देवता और मनुष्योंसे कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्रसे पार होनेका साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्गमें पहुँचनेकी सीढ़ी है।

पुरुष जैसे लोगोंके साथ रहता है, जैसे मनुष्योंका सङ्ग करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही होता है। जैसे सफेद कपड़ेको जिस रंगमें रंगा जाय वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी साधु, असाधु, तपस्वी या चोर जिसकी सङ्गति करता है, उसीके वशमें हो जाता है। देवतातोग सदा सत्पुरुषोंका सङ्ग करते हैं—उन्हींकी बातें सुनते हैं, इसीलिये वे मनुष्योंके क्षणभङ्गुर भोगोंकी ओर देखने भी नहीं जाते। जो विषयोंके बढ़ने-घटनेवाले स्वरूपको ठीक-ठीक जानता है, उसकी समाप्ता न चन्द्रमा कर सकते हैं, न वायु। जो दोनोंका परित्याग करके हृदयान्तर्बन्त परमात्माके ध्यानमें स्थित रहता है, वही सत्पुरुषोंके मार्गपर चलनेवाला है। उसीके साथ देवता प्रेम करते हैं। जो सदा वेद पालने और उपस्थ-इन्द्रियके भोग भोगनेमें ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने और कठोर वाणी बोलनेवाले हैं, वे यदि (प्रायश्चित्त आदिके द्वारा) उक्त कर्मोंके दोषसे छूट भी जायें तो भी

देवतातोग उन्हें पहचानकर दूसरे ही त्याग देते हैं। सत्पुरुषोंसे रहित और सब कुछ भक्षण करनेवाले पापाचारी मनुष्य देवताओंको संतुष्ट नहीं कर सकते; देवता तो सत्यवादी, कृतज्ञ और धर्मपरायण पुरुषोंके ही साथ प्रेम करते हैं। बोलनेसे न बोलना ही अच्छा है। किन्तु यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता है, धर्मयुक्त बात कहना तीसरी और प्रिय बोलना चौथी विशेषता है।

साध्योंमें पूछा—हंस! इस लोकको किसने आवृत कर रखा है? क्यों इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य किस कारणसे मित्रोंका त्याग करता है? और क्यों यह स्वर्गमें नहीं जाने पाता?

हंसने कहा—देवताओं! इस लोकको अमानने आवृत कर रखा है। परस्पर डाहके कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य सोमवशा मित्रोंका त्याग करता है और आसक्तिके कारण यह स्वर्गमें नहीं जाने पाता।

साध्योंमें पूछा—ब्राह्मणोंमें ऐसा कौन है, जो एकमात्र परम सुखी है? वह कौन है जो बहुतांके साथ रहकर भी मौन रहता है? कौन दुर्बल होकर भी बलवान् है? और कौन किसीके साथ भी कलह नहीं करता?

हंसने कहा—ब्राह्मणोंमें जो ज्ञानी है, एकमात्र वही परम सुखी है। ज्ञानी ही बहुतांके साथ रहकर भी मौन रहता है। वही दुर्बल होकर भी बलवान् है और वही किसीके साथ भी कलह नहीं करता।

साध्योंमें पूछा—ब्राह्मणोंमें देवत्व क्या है? साधुता क्या है? तथा उनमें असाधुता और मनुष्यता क्या है?

हंसने कहा—ब्राह्मणोंमें वेद-शास्त्रोंका अध्ययन ही देवत्व है, श्रतोंका पालन करना उनमें साधुता है, दूसरोंको निन्दा करना असाधुता है और मृत्युको प्राप्त होना उनमें मनुष्यता है।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! इस प्रकार यह जो साध्योंका हंसके साथ संवाद हुआ था, उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। यह शरीर ही कर्मोंकी योगिनी है और सद्भाव ही सत्य वस्तु है।

सांख्य और योगका अन्तर बतलाते हुए योगमार्गका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—तत! सांख्य और योगमें क्या अन्तर है? इसको बतानेकी कृपा करें; क्योंकि आपको सब बातोंका ज्ञान है।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! सांख्यके विद्वान्

सांख्यकी और योगके जाननेवाले योगकी प्रशंसा करते हैं। दोनों ही अपने-अपने पक्षके समर्थनमें उत्तम-उत्तम युक्ति और प्रमाण दिया करते हैं। योगके मनीषी विद्वान् अपने मतकी श्रेष्ठतामें यह उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते हैं कि ईश्वर-

का अस्तिव स्वीकार लिये बिना किसीकी भी मुक्ति कैसे हो सकती है? (अतः ईश्वरवादी योगियोंका ही मत सर्वश्रेष्ठ है।) सांख्यमतके माननेवाले महाप्राज्ञ द्विज मुक्तिका कारण इस प्रकार बताते हैं—सब प्रकारकी गतिधर्मोंको जानकर जो विषयोंसे विरक्त हो जाता है, वही देह-त्यागके अनन्तर मुक्त होता है; दूसरे किसी उपायमें मोक्ष मिलना अत्सम्भव है। इस प्रकार वे सांख्यकी ही मोक्षदार्शन कहते हैं। अपने-अपने पक्षमें मुक्तिपुस्तक कारण ब्राह्म होता है तथा सिद्धान्तके अनुसार हिनकारक ब्रह्म माननेयोग्य समझा जाता है। तुम्हारे जैसे लोगोंकी मिष्ट पुरयोंका ही मत ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि मिष्ट पुरय तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। योगके विद्वान् प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाणोंकी ही माननेवाले होते हैं और सांख्यमतानुयायी शास्त्र-प्रमाणपर विरवात करते हैं; परंतु मैं उन दोनों मतोंको तात्त्विक मानता हूँ। दोनों ही मतोंका मिष्ट पुरयोंमें आदर किया है। यदि शास्त्रके अनुसार उनका आचरण किया जाए तो दोनों ही परम गतिकी प्राप्ति करा सकते हैं। बाह्य-भितरकी पवित्रता, तप, प्राणियोंपर दया और वृत्तोंका पालन आदि बातें दोनों मतोंमें समान रूपमें स्वीकार की गयी हैं। केवल उनके दर्शन (शास्त्रीय प्रक्रिया) में अंतर है।

मुधिष्ठिर ! योगी पुरुष केवल योगवत्तसे राग, मोह, स्नेह, काम और श्रेष्ठ—इन पांच दोषोंका मूलोच्छेद करके परम पदको प्राप्त करता है। जैसे बड़े-बड़े नल्प जाल काटकर फिर जलमें समा जाते हैं, उसी प्रकार योगी अपने पापोंका नाश करके परमात्मपदको प्राप्त करते हैं। योगवत्तसे समस्त पुरुष लोभके बन्धन तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं, किंतु जैसे घोड़ोंकी आग पर दड़े-दड़े ईंधन रख देनेसे वह जलनेके बजाय बुझ जाती है, उसी प्रकार निर्धन योगी महान् योगके साधनसे दबकर नष्ट हो जाते हैं। परंतु वही आग जब हवाका सहारा पाकर प्रबल हो जाती है तो समूहमें पशुओंकी भी लक्ष्मण मत्त कर सकती है। इसी तरह योगीका भी योगवत्त बड़ जानेसे जब वह महागतिमान्मत्र हो जाता है तो उसका तेज प्रकाशित होने लगता है और उसमें प्रलयकालीन सूर्यकी भांति समस्त जगत्को मुझा डालनेकी शक्ति आ जाती है। जिस प्रकार कमजोर मनुष्य पानीमें डूबनें बह जाता है, उसी तरह दुर्बल योगी जिनमेंसे निवृत्तित हो जाता है। किंतु उसी महान् प्रवाहकी जैसे राफी रोक देना है, वैसे ही योगका महान् बल पाकर योगी भी समस्त विषयोंको रोक लेता है। योगगतिमान्मत्र पुरुष स्वच्छतापूर्वक प्रवृत्ति, श्रेय, देवता और पञ्च महान्-मूर्तियोंमें प्रवेश कर जाते हैं। अतिस तेजस्वी योगीके ऊपर

क्रोधमें भरे हुए यमराज, अन्तक और भयंकर पराक्रम रिलाने-वाली नाँतका भी जोर नहीं चलता। वह योगबल पाकर अपने हथारों रूप बना सकता और उन सबके द्वारा इस पृथ्वीपर विचर सकता है। फिर तेजकी समेट लेनेवाले सूर्यकी भांति वह उन सभी रूपोंको अपनेमें लीन करके उग्र तपस्यामें प्रवृत्त हो जाता है। बलवान् योगी बन्धन तोड़नेमें सनर्प होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसमें अपनेको मुक्त करनेकी पूर्ण शक्ति होती है।

राजन् ! मैं दृष्टान्तके लिये योगसे प्राप्त होनेवाली कुछ सूक्ष्म शक्तियोंका पुनः तुमसे वर्णन करूँगा तथा आत्म-सनाधिके लिये जो चित्तकी धारणा की जाती है, उसके विषयमें भी कुछ सूक्ष्म दृष्टान्त बतलाऊँगा, सुनो—जिस प्रकार तवा सावधान रहनेवाला धनुर्धर वीर चित्तको एकाग्र करके प्रहार करनेपर लक्ष्यको ब्रेष्ठ डालता है, उसी प्रकार जो योगी मनको परमात्माके ध्यानमें लगा देता है, वह निस्संदेह मोक्षको प्राप्त कर लेता है। जैसे (सिरपर रखे हुए) तेलसे भरे पात्रकी ओर ध्यान रखनेवाला पुरुष सावधान एवं एकाग्रचित्त होकर सोड़ियोंपर चढ़ जाता है और जरा भी तेल नहीं छलकता, उसी तरह योगी भी योगयुक्त होकर आत्माको परमात्मामें स्थिर करता है। उस समय उसका आत्मा अत्यन्त निर्मल तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो जाता है। जैसे सावधान मल्लाह समुद्रमें पड़ी हुई नावको शीघ्र ही किनारेपर लगा देता है, उसी प्रकार योगके अनुहार तत्त्वको जाननेवाला पुरुष सनाधिके द्वारा मनको परमात्मामें लगाकर देहका त्याग करनेके अनन्तर दुर्गम स्थान (परम धाम) को प्राप्त होता है। जिस तरह अत्यन्त सावधान सारथि अच्छे घोड़ोंको रथमें बाँधकर धनुर्धर वीरको तुरंत अमीष्ट स्थानपर पहुँचा देता है, वैसे ही धारणाओंमें एकाग्रचित्त हुआ योगी लक्ष्यकी ओर छोड़े हुए बाणकी भांति शीघ्र परम पदको प्राप्त करता है। जो योगी सनाधिके द्वारा आत्माको परमात्मामें स्थित देख स्थिरभावसे बैठा रहता है, वह अपने पापको नष्ट करके पवित्र पुरुषोंको मिलनेवाले अविनाशी पदको प्राप्त होता है। योगके महान् कर्तमें एकाग्रचित्त रहनेवाला जो योगी नाभि, कण्ठ, मस्तक, हृदय, वसःस्थल, नाक, कान और नेत्र आदि स्थानोंमें धारणाके द्वारा आत्माको परमात्मामें साययुक्त करता है, वह अपने शुभाराम कर्मोंको शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योगका आध्य लेकर मुक्त हो जाता है।

मुधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! योगी कैसा आहार करे और किन-किनकी बातें तो उसे योगशक्ति प्राप्त होती है ?

भीष्मजीने कहा—जो धानकी खुट्टी और तिलकी लसी खाता तथा घी-तेलका परित्याग करता है, उसीको योगबलकी प्राप्ति होती है। दीर्घकालतक प्रतिदिन एक बार जोकी खूबी लप्सी खानेवाला योगका साधक शुद्धचित्त होकर योगबलकी प्राप्ति कर सकता है। जो योगी दूधमें पानी मिलाकर कुछ समयतक दिनमें एक बार पीता है, फिर पंद्रह दिनोंमें एक बार पीता है, तत्पश्चात् एक महानेम्, एक श्रुतुमें और एक वर्षमें एक बार उसे ग्रहण करता है, उसको भी योगशक्ति प्राप्त होती है। काम, क्रोध, शीत, उरण, चर्षा, भय, शोक, श्वास, मनुष्योंको प्रिय लगनेवाले विषय, दुर्जय असंतोष, घोर तृष्णा, स्पर्श, निद्रा तथा आलस्यको जीतनेवाले धीतराग महाप्राज्ञ महात्मा पुण्य स्वाध्याय तथा ध्यानका सम्पादन करके बुद्धिके द्वारा परमात्माके सूक्ष्म स्वरूपका प्रकाश (साक्षात्कार) करते हैं। विद्वान् बाह्यगोणे योगके इस महान् पथको दुर्गम बतलाया है, कोई विरला ही इस मार्गको कुशलतापूर्वक तय कर सकता है। यह बहुत सपों, कीड़े-मकोड़ों, गड़दों और काँटोसे भरे हुए निर्जल वनकी भांति दुर्गम है, कोई-ही-कोई द्विज इस मार्गपर कुशलपूर्वक चल

पाता है; क्योंकि इसमें बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं। छुरेकी तीखी धारपर चाहे कोई सुगमतापूर्वक बँठ ले; किंतु जिनका चित्त शुद्ध नहीं है ऐसे मनुष्योंका योगकी धारणाओंमें स्थिर रहना नितान्त कठिन है। जो विधिपूर्वक योग-धारणाओंमें स्थिर रहता है, वह जन्म-मृत्यु, सुख और दुःखके बन्धनोंसे छुटकारा पा जाता है। यह मीने तुम्हें योगविषयक नाना शास्त्रोंका सिद्धान्त बतलाया है। योगसाधनाका जो कुछ कार्य है वह द्विजातियोंके ही लिये निश्चित किया गया है अर्थात् उन्हींका इसमें अधिकार है। योगसिद्ध महात्मा पुण्य यदि चाहे तो तुरंत ही भुक्त होकर परब्रह्मके स्वरूपको प्राप्त हो जाता है, वह अपने योग-बलसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म, कातिकेय तथा ब्रह्मपुत्र सनकादिकोंके विग्रहमें प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार चन्द्रमा, विश्वेदेव, सर्प, पितर, वन, पर्वत, समुद्र, नदी, मेघ, नाग, वृक्ष, यक्ष, विस्रा, गन्धर्व तथा स्त्री और पुरुषोंमेंसे प्रत्येकका स्वरूप धारण कर सकता है। युधिष्ठिर! परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली यह कल्याणमयी वार्ता प्रसंगवश तुम्हें सुनायी गयी है, योगसिद्ध महात्मा पुण्य भगवान् नारायणका स्वरूप हो जाता है।

सांख्यका वर्णन

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! आपने शिष्ट पुरुषोंको मान्यताके अनुसार योगमार्गका यद्युर्ध्वरूपसे वर्णन किया, अब मैं सांख्यमतकी सम्पूर्ण विधि पूछ रहा हूँ, उसे बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि तीनों लोकोंका सम्पूर्ण ज्ञान आपको विदित है।

भीष्मजीने कहा—राजन्! आत्मतत्त्वको जाननेवाले सांख्यशास्त्रके विद्वानोंका वह सूक्ष्म ज्ञान सुनो, जिसे ईश्वर-कौटिलमें माने जानेवाले कपिल आदि महर्षियोंने प्रकाशित किया है। इस मतमें किसी प्रकारकी भूल नहीं देखी जाती और गुण बहुत-से उपलब्ध होते हैं तथा इसमें दोगोंका सर्वथा अभाव है। जो ज्ञानके द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गन्धर्व, पितर, तिर्यग्योनि, गरुड, मरुद्गण, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, अमुर, विश्वेदेव, देवर्षि, योगी, प्रजापति तथा ब्रह्माजीके भी सम्पूर्ण विषयोंकी सवोध जानकर संसारके मनुष्योंको परमायु तथा सुखके परम तत्त्वका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और विषयोंको इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके समय-समय पर जो दुःख प्राप्त होते हैं उसको, तिर्यग्योनि और नरकमें पड़नेवाले जीवोंके दुखको, स्वर्ग तथा वैदिक धर्मियोंके गुण-दोषोंको जानकर ज्ञान, सांख्य और योगशास्त्रके गुण-दोषको भी समझ लेते हैं तथा सत्वगुणके बल, रजोगुणके

नौ, तमोगुणके आठ, बुद्धिके सात, मनके छः और आकाशके पाँच गुणोंका ज्ञान प्राप्तकर आत्माकी प्राप्ति करानेवाले मार्ग, प्राकृत प्रलय तथा आत्मविचारको ठीक-ठीक जान लेते हैं; वे ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न तथा मोहोपयोगी साधनोंके अनुष्ठानसे शुद्धचित्त हुए सांख्ययोगी परम मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं। नेत्र रूपका, नासिका गन्धका, श्रोत्र रास्यका, जिह्वा रसका और त्वचा स्पर्शका आश्रय है। इसी प्रकार वायुका आश्रय आकाश, मोहका आश्रय तमोगुण और सोमका आश्रय इन्द्रियोंके विषय है। गतिका आधार चित्त, दलका इन्द्र उदरका अग्नि तथा दृष्ट्येवकीका आधार बल है। बलका तेज, तेजका वायु, वायुका आकार, आकारका अल्पत्वको महत्त्वका अधिष्ठान बुद्धि है। बुद्धिका आश्रय तमोगुणका आश्रय रजोगुण और रजोगुणका आश्रय कर्मात्मका है। स्वप्न प्रकृतिके आश्रयने रहता है, प्रकृतिके आश्रय और शोषका परम तेजस्वी भगवान् शास्त्रोंके आश्रयका आश्रय कोश है, किंतु कोशके आश्रयको शक्ति है (इस बातको वे जानते हैं) वे जो सांख्यशास्त्रके गुण-दोषोंको जानकर ज्ञान, सांख्य और योगशास्त्रके गुण-दोषको भी समझ लेते हैं तथा सत्वगुणके बल, रजोगुणके

भीष्मजीने कहा—यदुभवन ! कपिल या सांख्यमतके अनुयायी मेधावी विद्वान् इस देहके भीतर पाँच दोष बतलाते हैं, उन्हें च्छाता हूँ, मुने—काम, क्रोध, भय, निद्रा और स्वास—ये पाँच दोष समस्त शरीरधारियोंके भीतर देखे जाते हैं। सत्पुरुष क्षमासे शीघ्रका, संकल्पके त्यागसे कामका, तत्त्वगुणके सेवनसे निद्राका, प्रमादके त्यागसे भयका तथा अल्प आहारके सेवनद्वारा स्वास-दोषका नाश करते हैं। राजन् ! महावृद्धिमान् सांख्यके विद्वान् संकटों गुणोंके द्वारा गुणोंको, संकटों दोषोंके द्वारा दोषोंको तथा संकटों विचित्र हेतुओंसे विचित्र हेतुओंको विगोपद्वयसे जानकर व्यापक ज्ञानके प्रभावसे संसारको पानीके फेनके समान नश्वर, बिष्णुकी संकटों भावोंके हवा हुआ, दीवारपर बने हुए चित्रकी तरह जड़, नगरे समान निष्कार, अन्धकारसे भरे हुए गड्ढेकी भाँति भयंकर, वर्षाकालके जलके बुदबुदोंकी तरह क्षणभङ्गुर, तुलहीन, पराधीन, नष्टप्राय तथा कीचड़में फँसे हुए हाथीकी तरह रजोगुण और तमोगुणमें मग्न समन्ते हैं। इसलिये वे संज्ञान आदिकी आसक्तिको दूर करके तप और विवेकद्वयी शस्त्रसे राजस, तामस और सात्त्विक गन्ध आदि विषयों तथा स्वर्गनिद्रयके देहाश्रित भोगोंकी आसक्तिको फाट डालते हैं। तदनन्तर, वे सिद्ध यति दुःखद्वयी जलसे भरे हुए इस भयंकर संसार-सागरको ज्ञानद्वयी नाँकाके द्वारा तर जाते हैं तथा अत्यन्त दुस्तर जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पाकर परम निर्मल आकाशस्वरूप परमात्मानमें प्रवेश कर जाते हैं। छिद्र वहलिये संसारमें नहीं लौटते। यही परम गति है। जो सब प्रकारके दृष्टांसे रहित, सत्यवादी, सरल तथा सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करनेवाले हैं, उन महात्माओंको ही ऐसी गति प्राप्त होती है।

इस प्रकार सांख्ययोगी पुण्य और पापसे रहित होकर प्रकृतिमा भी अतिरुन्धण करके निदंष्ट, मायासे परे, अविनाशी भगवान् नारायणको प्राप्त होता है। वे नारायणदेव

निर्विकार और निर्गुण परमात्मा ही हैं। उन्हें प्राप्त हो जानेपर जोड़को फिर इस संसारमें लौटना नहीं पड़ता। सांख्य-योगियोंको यह बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। इस ज्ञानके समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। यह सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्मका ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि, मध्य और अन्तसे रहित, दृष्टांसे अतीत, शारद्वत, कूटस्थ और नित्य है—ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है। उसीसे जगत्की उत्पत्ति और प्रलयरूप विकार होते हैं। महापियोंने अपने शास्त्रोंमें उसीको प्रशंसा की है। समस्त ब्राह्मण, देवता और शान्तचित्त पुरुष उसी अनन्त, अच्युत परब्रह्म परमात्माकी प्रार्थना और स्तुति करते हैं। योगमें उत्तम सिद्धिको प्राप्त हुए योगी तथा अपार ज्ञानवाले सांख्यवेत्ता पुरुषभी उसीका गुणगान करते हैं। कुन्तीनन्दन ! ऐसी प्रसिद्धि है कि यह सांख्यशास्त्र ही उस निराकार परमेश्वरका आकार है।

राजन् ! महात्मा पुरुषोंमें, वेदोंमें, योगशास्त्रमें तथा पुराणोंमें जो नाना प्रकारका उत्तम ज्ञान देखा जाता है, वह सब सांख्यसे ही आया हुआ है। बड़े-बड़े इतिहासोंमें, सत्-पुरुषोंद्वारा सेवित अर्थशास्त्रमें तथा इस संसारमें जो कुछ भी ज्ञान है, वह सब सांख्यसे ही प्राप्त हुआ है। मन और इन्द्रियोंका संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाममें सुख देनेवाले जो सूक्ष्म तप बतलाये गये हैं, उन सबका सांख्यशास्त्रमें यथावत् वर्णन किया गया है। सांख्यज्ञानी शरीरत्यागके पश्चात् ब्रह्ममें प्रवेश करते हैं। सांख्यका ज्ञान अत्यन्त विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागरके समान अगाध, निर्मल और उदारभावोंसे परिपूर्ण है। इस अप्रमेय ज्ञानको भगवान् नारायण ही पूर्णरूपसे धारण करते हैं। युधिष्ठिर ! यह मैंने तुमसे सांख्यका तत्त्व बतलाया है। इस पुरातन विश्वके रूपमें भगवान् नारायण ही विराजमान हैं; वे ही सृष्टिके समय जगत्की सृष्टि और संहारकालमें उसका संहार करते हैं।

क्षर और अक्षरका विषय बतलानेके लिये करालजनक और वसिष्ठका संवाद

युधिष्ठिरने पूछा—नितामह ! वह अक्षर-ज्ञत्त्व क्या है, जिसको प्राप्त कर लेनेपर जीव पुनः इस संसारमें नहीं आता तथा क्षर पदार्थ क्या है, जिसको ज्ञाननेपर भी आवागमन बना रहता है। क्षर-अक्षरके स्वरूपको स्पष्टरूपसे समझनेके लिये मैंने यह प्रश्न किया है। वेदोंके विद्वान् ब्राह्मण, महानाग ऋषि तथा महात्मा यद्विषांने आपके ज्ञानका खजाना बतलाया है। अब मूर्खके दक्षिणाधनमें रहनेके थोड़े ही दिन बारी हैं, उत्तरापण दाते ही आप-परमधामको पधारेंगे; फिर

हमलोग यह कल्याणमयी वार्ता किससे सुनेंगे ? आपके इन अमृतमय वचनोंको सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती (अतएव आप मुझे यह क्षर-अक्षर का विषय बतलाइये)।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें कराल-जनक और वसिष्ठके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ। एक समयकी बात है, सूर्यके समान तेजस्वी मुनिवर वसिष्ठ अपने आश्रमपर विराजमान थे। वहाँ राजा करालजनकने पहुँचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और

विनययुक्त मधुर वाणीमें कहा 'भगवन् ! जहाँसे ज्ञानी पुरुषों-का पुनरावर्तन नहीं होता, उस सनातन ब्रह्मके स्वरूपका मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ । इसके सिवा जो शर कहा गया है उसका तथा जिसमें इस जगत्का लय होता है उस निर्वाकार, आनन्दस्वरूप और कल्याणमय अक्षर-तत्त्वका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ (अतः आप इस विषयका उपदेश करें) ।'



वसिष्ठजीने कहा—राजन् ! जिस प्रकार इस जगत्का क्षरण (लय) होता है उसको तथा जो कर्म भी क्षरित (नष्ट) नहीं होता उस अक्षरको भी बता रहा हूँ, धुनो—देवताओंके बाह्य हजार वर्षोंका एक चतुर्युग होता है और वस हजार चतुर्युगका एक कल्प कहलाता है, इसीको ब्रह्माका एक दिन कहते हैं, इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है जिसके अन्तमें जाग्रत होकर वे इस विशाल संसारको सृष्टि करते हैं । यद्यपि वे वास्तवमें निराकार हैं तो भी साकार जगत्को रचना करते हैं, उनमें अणिमा आदि शक्तियोंका स्वाभाविक निवास है, वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं, सब ओर हाय-परवाले, सब ओर मेघ, सिर और मुखवाले तथा सब ओर कानवाले हैं; क्योंकि वे संसारमें सबको ध्याप्त करके स्थित हैं । वे ही भगवान् हिरण्यगर्भ हैं, जहाँको बुद्धि कहते हैं । वे ही योगशास्त्रमें महान्, विरञ्च और अत्रके नामसे पुकारे जाते हैं तथा सांख्य-शास्त्रमें भी उनके अनेकों

नामोंका वर्णन आता है । उनके नाना प्रकारके बहुत-से अद्भुत रूप हैं । वे विश्वके आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं । यह नानात्मक जगत् उनसे ध्याप्त है, जहाँने अपने ही स्वरूपसे तीनों लोकोंकी सृष्टि की है । बहुत-से रूप धारण करनेके कारण उन्हें विश्वरूप कहते हैं । वे महतेजस्वी भगवान् आत्मशक्तिते महत्तत्त्वकी सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापतिको उत्पन्न करते हैं । इनमें निराकारसे साकाररूपमें प्रकट होनेवाले प्रजापतिको तो विद्यासर्ग कहते हैं और महत्तत्त्व एवं अहंकारको अविद्या-सर्ग । अविधि (ज्ञान) और विधि (कर्म) की उत्पत्ति भी उस परमात्मसे हो हुई है, श्रुति तथा शास्त्रके अर्पका विचार करनेवाले विद्वानोंने जहाँ विद्या और अविद्या बतलाया है । अहंकारसे जो सूक्ष्म भूतोंकी सृष्टि होती है, उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिये । राजस, तामस और सात्त्विक-भेदसे तीन प्रकारके अहंकारसे एक चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसे वंशुत सर्ग कहते हैं । आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँच महामूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच विषय वंशुत सर्गके अन्तर्गत हैं; इन दसोंकी उत्पत्ति एक ही साथ होती है । पाँचवाँ भौतिक सर्ग है, इसके अन्तर्गत आँसू, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा—ये पाँच शानेन्द्रियाँ तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और त्विङ्ग—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । मनसहित इन सबको उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है । ये चौबीस तत्त्व सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें मौजूब रहते हैं । तत्त्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूपको जानकर कभी शोक नहीं करते । त्रिभुवनमें जितने देहधारी हैं, उन सबमें इन्होंने तत्त्वोंके समुच्चयको देह समझना चाहिये । देवता, मनुष्य, वानर, यक्ष, भूत, गन्धर्व, किन्नर, सर्प, चारण, पिशाच, देवयि, निशाचर, दंश, कीट, मच्छर; दुर्गन्धित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चाण्डाल, हिरन, पुल्कस (म्लेच्छ), हाथी, घोड़े, गधे, सिंह, वृष और गौ आदिके रूपमें जो कुछ मूर्तिमान् पदार्थ है, सबमें इन्होंने तत्त्वोंका दर्शन होता है । पृथ्वी, जल और आकाशमें ही प्राणियोंका निवास है और कहीं नहीं । यह सम्पूर्ण पाञ्च-भौतिक जगत् ध्वस्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण (क्षय) होता है । इसलिये इसको शर कहते हैं, इसके अतिरिक्त जो तत्त्व है उसे अक्षर कहा गया है । इस प्रकार उस अद्वयत अक्षरसे उत्पन्न हुआ यह व्यवस्तसंसक मोहात्मक जगत् क्षरित होनेके कारण शर नाम धारण करता है । शर-तत्त्वोंमें सबसे पहले महत्तत्त्वकी ही सृष्टि हुई है, यही शरका परिचय है । राजन् ! तुमने जो पूछा था उसके अनुसार यह मैंने शर-अक्षरके विषयका वर्णन किया है ।

वसिष्ठजीके द्वारा जीवकी अज्ञताका वर्णन

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन्! जीव अज्ञानका एक दैत्य है। वह देहकी धारण करता हुआ हजारों बार जन्म ग्रहण करता है। वह गुणोंके सम्बन्धमें कभी सहस्रों प्रकारकी तिर्यग्योनिजोंमें और कभी देवताओंकी योनिमें जन्म लेता है। जैसे रोगका बीड़ा अपने ही उत्पन्न किये हुए तन्मुद्रासि अपनेको सब ओरसे बांध लेता है, उसी प्रकार वह निर्गुण आत्मा भी अपने ही प्रकृत किये हुए प्राकृत गुणोंसे बंध जाता है। वह स्वर्ण सुन-दुःखादि दृष्टोंमें रहित होनेपर भी मित्र-मित्र योनिजोंमें जन्म धारण करके सुख-दुःखको भोगता है। उसे कभी तिरमें दर्द होता, कभी ज्वर बुद्धती, कभी दांतमें व्यथा होनी तथा कभी गलेमें घेडा निकल आता है। इसी प्रकार वह लसोदर, नृषा-रोग, स्वद, गण्ड, सखेद दाग, कोढ़, अग्निदाह, दमा, सर्पों और अस्फार (मृगों) आदि रोगोंका शिकार होता रहता है। इनके सिवा और भी जितने प्रकारके प्रकृतिकल्प अद्वैत रोग वैद्यशास्त्रोंमें उल्लेख होते हैं, उन सबसे यह अपनेको आशान्त समझता है। कभी अपनेको तिर्यग्यो-निका जीव मानता है और कभी देवत्वका अभिमान धारण करता है तथा इस अभिमानके ही कारण उन-उन गरीबोंद्वारा किये हुए कर्मोंका फल भी भोगता है। अज्ञानसे आवृत मनुष्य कभी मूर्खोंपर मोना है, कभी नैटकके समान हाथ-पैर तिस्रो-दुपर गभन करता है, कभी बीरालसमे बैठता है, कभी कुम्भे में दानमें, कभी टैंडर, कभी कांटोंपर, कभी राखमें, कभी जमीनपर, कभी घुट-मूत्रमें, कभी पानी और कीचड़में, कभी बौलीपर और कभी नाना प्रकारकी मृष्याओंपर सीता है। कभी मूर्खोंके मेषना बांधे कौचीन धारण करता है, कभी लोभ-प्रदं घूमता है, कभी रोगी वस्त्र, कभी काला मृगचर्म, कभी मन या अन्तके बने वस्त्र, कभी राजोचित वस्त्र, कभी पेड़की छाय, कभी गुरदरे वस्त्र, कभी रोगीके कपड़े और कभी चौपड़े पहनता है। इनके अनिश्चित भी नाना प्रकारके वस्त्र और तख्त-तख्तके रत्न धारण करता और विचित्र-विचित्र मोहनका स्वाद लेता है। कभी एक रातका अन्तर देकर मोहन करता है, कभी दिन-रातमें एक बार और कभी दिनके भी, छठे या अठारवें पहरमें मोहन करता है। कभी छः रात वितकार, कभी आठ चिन्तन, कभी सात, दस और बारह दिनोंके बाद अन्न ग्रहण करता है तथा कभी एक मास-कर कुछ भी नहीं खाता। कभी स्याकल्प-मूलका ही भोजन करता, कभी पानी या हवा पीकर रह जाता और कभी तिलकी कली और बर्तिका ही आहार करता है। कभी-कभी गोबर,

गोमूत्र, साग, फूल, सेवार, मूखे पत्ते अथवा पेड़से गिरे हुए फलोंकी ही खाकर या जलका आचमनमात्र करके जीवन-निर्वाह करता है। इस प्रकार सिद्धि पानेकी इच्छासे वह नाना प्रकारके कठोर नियमोंका पालन करता है। कभी विधिके अनुसार चान्द्रायण-व्रतका अनुष्ठान करता और अनेकों प्रकारके धार्मिक चिह्न धारण करता है, कभी चारों आश्रमोंके मार्गपर चलता और कभी कुमार्गका सेवन करता है। कभी तरह-तरहके पाखण्ड फैलाता, कभी एकान्तमें गिलाखण्डोंकी छायामें बैठता, कभी नगरोंके पास, कभी नदियोंके एकान्त किनारोंमें, कभी एकान्त वनमें, कभी पवित्र देवमन्दिरोंमें तथा एकान्त सदोवरोंके तटपर और कभी पर्वतोंकी एकान्त गुफाओंमें निवास करता है। उन स्थानोंमें नाना प्रकारके गोपनीय उप, व्रत, नियम, तप, यज्ञ तथा अन्य कर्मोंका अनुष्ठान करता है। कभी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण और क्षत्रियोंके कर्तव्यका पालन करता और कभी वैश्य तथा मूर्खोंमें काम करता है। दीन-दुखी और अंधोंको नाना प्रकारके दान देता तथा अज्ञानवश अपनेमें सत्त्व, रज, तम—इन त्रिविध गुणों और धर्म, अर्थ, कामका भी अभिमान करता है। इस प्रकार आत्मा प्रकृतिके द्वारा अपने ही स्वरूपके अनेकों विभाग करता है। कभी स्वाहा, कभी स्वधा, कभी बपट्कार और कभी नमस्कारमें प्रवृत्त होता है, कभी यज्ञ करता और कराता, कभी वेद पढ़ता और पढ़ाता तथा कभी दान देता और लेता है—इसी प्रकार दूसरे-दूसरे कार्य भी किया करता है। कभी जन्म लेता, कभी मरता तथा कभी विवाह और संग्राममें प्रवृत्त रहता है। विद्वान् पुरुषोंका कहना है कि यह सब गुणगुण कर्ममार्ग है।

जगत्की सृष्टि और प्रलय प्रकृतिदेवीका ही कार्य है। जैसे सूर्य प्रतिदिन सायंकालमें अपनी किरणोंको सवेद लेता है, वैसे ही जगदात्मा प्रलयकालमें इन गुणोंका संहार करके अकेले रह जाते हैं। इस प्रकार यह सृष्टि और प्रलयका कार्य बारंबार चलता रहता है और आत्मा (स्वयं गुणोंसे रहित होनेपर भी प्रकृतिके सहवाससे) लीलाके निये अपनेमें नाना प्रकारके मनोरम गुणोंका अभिमान (आरोप) कर लेता है। सृष्टि और प्रलय जिनके धर्म हैं, उस प्रकृतिको विहृत (कार्यरत) करके तीनों गुणोंका स्वामी आत्मा कर्म-मार्गमें प्रवृत्त होकर उस (प्रकृति) के द्वारा होनेवाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्यको अपना मान लेता है। इस प्रकार (प्रकृतिकी प्रेरणासे स्वभावतः) मुख-दुःखादि दृष्टोंकी

पुनरावृत्ति होती रहती है, किन्तु जीवात्मा अज्ञानवश यह मान बँडता है कि यह सब इन्द्र भुम्पर ही आक्रमण करते हैं (इसो-लिये यह दुःखी होता है)। वह लिङ्गशरीरसे हीन होनेपर भी अपनेको उससे मुक्त मानता है तथा कालधर्म (मृत्यु) से रहित होकर भी अपनेको कालधर्मों (मरणशील), सत्त्वसे भिन्न होकर भी सत्त्वरूप और तत्त्वसे रहित होकर भी सत्त्व-स्वरूप समझता है। वह यद्यपि क्षेत्रसे विलक्षण है तो भी अपनेको क्षेत्र मानता है, सृष्टिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है तो भी समूची सृष्टिको अपनी ही समझता है। वह कहीं

गमन नहीं करता तो भी अपनेको आने-जानेवाला मानता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव अपनेको अजन्मा होकर भी जन्म लेनेवाला, निर्मम होकर भी भयभीत तथा अक्षर (अविनाशी) होकर भी क्षर (नाशवान्) समझता है। इस तरह अज्ञानके कारण और अज्ञानी पुरुषोंका सङ्ग करनेसे जीवका निरन्तर पतन होता है तथा उसे करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते हैं। वह पशु, पक्षी, मनुष्य तथा देवताओंकी योनियोंमें हजारों बार मर-मरकर जन्म धारण किया करता है।

आत्माकी प्रकृतिसे भिन्नता तथा योग और सांख्यका मत

राजा जनकने कहा—भगवन्! जैसे पुरुषके बिना स्त्री और स्त्रीके बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते; वीरोंके सम्बन्धसे ही देहकी उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक-दूसरेसे सम्बद्ध (होकर ही सृष्टि करते) हैं, ऐसी स्थितिमें पुरुषका मोक्ष असम्भव जान पड़ता है। यदि मोक्षके निकट पहुँचानेवाला (अर्थात् उसे स्पष्ट समझानेवाला) कोई दृष्टान्त हो तो उसे बताइये; क्योंकि आपकी सब कुछ प्रत्यक्ष है। मुझे भी मुक्त होनेकी इच्छा है—मैं भी उस पदको पाना चाहता हूँ जो देहरहित, जरा-रहित, इन्द्रियातीत और निर्विकार है।

वसिष्ठजीने कहा—राजन्! तुमने वेद और शास्त्रोंके अनुसार दृष्टान्त देकर जो बात कही है, वह ठीक है। तुम जैसा समझते हो, वैसी ही बात है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने वेद और शास्त्रोंके ग्रन्थोंका अध्ययन किया है; परन्तु ग्रन्थके तत्वकी ठीक-ठीक नहीं समझा है। जो वेद और शास्त्रके ग्रन्थोंको तो याद रखता है, किन्तु उसके तत्वकी नहीं समझता, उसका वह याद रखना ध्यय है। वह तो केवल ग्रन्थोंका बोझ होता है। जो स्थूल और मन्दबुद्धिसे मुक्त होनेके कारण विद्वानोंकी सभामें शास्त्रीय ग्रन्थका अर्थतक नहीं बता सकता, वह उस ग्रन्थके विषयका निर्णय कैसे कर सकता है? इस-लिये सांख्य और योगके ज्ञाता महात्मा पुरुषोंके मतमें मोक्षका जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं तुम्हें यथार्थरूपसे बतलाता हूँ, सुनो—योगी जिस तत्वका साक्षात्कार करते हैं, सांख्यके विद्वान् भी उसीका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योगको एक समझता है, वही बुद्धिमान् है। जैसे बीजसे बीजकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्यसे द्रव्य, इन्द्रियसे इन्द्रिय और देहसे देहकी प्राप्ति होती है। परन्तु परमात्मा तो इन्द्रिय, बीज, द्रव्य और देहसे रहित तथा निर्गुण है, अतः

उसमें गुण कैसे हो सकते हैं? जैसे आकाश आदि गुण सत्त्वादि गुणोंसे उत्पन्न होते और उन्हेंमें लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्त्वादि गुण भी प्रकृतिसे उत्पन्न होकर उसीमें लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म-मृत्युसे रहित, अनन्त, सबका द्रष्टा और निर्विकार है। वह सत्त्वादि गुणोंमें केवल आत्मा-भिमान करनेके कारण ही गुणस्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान्में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मामें गुण कैसे रह सकते हैं? अतः गुणोंके स्वरूपको जाननेवाले विद्वान् पुरुषोंका यही सिद्धान्त है कि जब जीवात्मा प्राकृत गुणोंमें अपनेपनका अभिमान छोड़ देता है, उस समय देहादिमें आत्मबुद्धिका परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार करता है। अतः सांख्य और योगके विद्वान् कहते हैं कि जो सत्त्वादि गुणोंसे रहित, अव्यक्त, निरायक, निर्गुण, अन्तर्यामी, नित्य और सबका अधिष्ठाता है, वह परमात्मा प्रकृति और उसके गुणोंसे विलक्षण पञ्चोत्तम तत्त्व है। जिस समय शारी पुरुष इस अव्यक्त तत्वको ठीक-ठीक समझ लेते हैं, उस समय उन्हें ब्रह्मके स्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है। सदा एक रूपमें स्थित रहनेवाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूपमें प्रतीत होनेवाला जगत् क्षर कहलाता है; इस प्रकार यह क्षर-अक्षरका स्वरूप बतलाया गया।

जनकने पूछा—मुनिवर! आपने अक्षरको एकलक्ष और क्षरको अनेक रूप बतलाया; किन्तु अब भी मुझे इन दोनोंके स्वरूपके विषयमें संदेह बना ही रह गया है। यद्यपि आपने क्षर और अक्षरको समझनेके लिये कई पुरिचर्या बतलायी हैं, किन्तु मैं अस्थिरबुद्धि होनेके कारण उन्हें भूल-गा गया हूँ; इसलिये इस मानात्व और एकत्वरूप दर्शनको पुनः सुनना चाहता हूँ। क्षर, अक्षर, सांख्य, योग और भेद-अभेद-का विषय पूर्णरूपसे बताइये।

वसिष्ठजीने कहा—राजन् ! तुम जो-जो बातें पूछ रहे हो, उन सबका उत्तर दूंगा। इस समय विशेषतः योगविधि का वर्णन कर रहा हूँ, मुने—योगका प्रधान कर्तव्य है ध्यान, यही योगियोंका परम दत्त है। योगके विद्वान् मनकी एकाग्रता और प्राणाधान—ये ध्यानके दो भेद बतलाते हैं। प्राणाधान भी रुग्ण और निर्गुणभेदसे दो प्रकारका है। मलत्याग, भूतत्याग और भोजन—इत तीन कालोंको छोड़कर बाकी समयमें योगाभ्यास करना चाहिये। योगका साधक मनके द्वारा इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर शुद्धभावसे स्थित हो जाय और मनोपी पुरयाने जिन्हें चौबीस तत्त्वोंसे परे अविनाशी बतलाया है, उस परमात्माका ध्यान करे। उन्से सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करके निताहारी और जितेन्द्रिय होना चाहिये तथा रात्रिके पहले और पिछले भागमें मनको आत्मामें एकाग्र करना चाहिये। जब योगी मनके द्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी और बुद्धिके द्वारा मनको स्थिर करके पत्थरकी भाँति अविचल हो जाय, नूखे काठकी भाँति निष्कम्प और पर्वतकी तरह स्थिर रहे, तभी वह योगयुक्त कहलाता है। जिस समय उसे मुने, भूषणे, स्याद लेने, देखने और स्पर्श करनेका ज्ञान नहीं रहता, जब मनमें किसी प्रकारका संकल्प नहीं उठता तथा काष्ठकी भाँति स्थित होकर वह किसी भी वस्तुका अभिमान या बुध-बुध नहीं रखता, उसी समय उसे अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त एवं योगयुक्त कहते हैं। उस अवस्थामें वह वायुरहित स्थानमें बिना हिले-डुले जलनेवाले दीपककी भाँति निरवलभावसे प्रकाशित होता है। लिङ्गशरीरसे उत्तरा कोई सम्पर्क नहीं रहता। ऐसे योगसिद्ध पुरुषकी उपर-नीचे अपना मध्यमें कहीं भी गति नहीं होती। ध्यान-निष्ठ योगीको अपने हृदयमें धूमरहित अग्नि, किरणमालाजालि भस्मित सूर्य और बिजलीके समान तेजस्वी आत्माका साक्षात्कार होता है। धर्मवान्, मनोपी, वेदवेत्ता और महान्मा ब्राह्मण हो उस अजन्मा एवं अनृतस्वरूप ब्रह्मका दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अपने भी अणु और महान्ते भी महान् कहा गया है। सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर वह अन्तर्धानीहृदयमें अवस्थित स्थित रहता है तो भी किसीको दिखायी नहीं देता; शुद्ध बुद्धिसे ही उसका साक्षात्कार होता है। वह महान् अज्ञानाधकारने परे है, इसलिये वेदके परगामी सर्वज्ञ पुरयाने उसे तर्मानुर (अज्ञाननामक) कहा है। वह निर्मल, अज्ञानरहित, लिङ्गरहित और उपाधिगुण्य परमात्मा कहा गया है। यही योगियोंका योग है, इसके सिवा योगका और क्या लक्षण हो सकता है? इस तरह साधना करनेवाले योगी सबके द्रष्टा अन्तर-अन्तर परमात्माका दर्शन करते हैं। महान्मा में तुम्हें योगदर्शन बतलाया है।

जब सांख्यका वर्णन करता हूँ, यह विचारप्रधान दर्शन है। राजन् ! प्रकृतिवादी विद्वान् मूल प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं, उससे दूसरा तरह प्रकट हुआ जिसे महत्तत्त्व कहते हैं, महत्तत्त्वसे अहंकार नामक तीसरे तत्त्वकी उत्पत्ति हुई है, अहंकारसे सूक्ष्म भूतोंकी पाँच तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) प्रकट हुई हैं। इन आठोंको प्रकृति कहते हैं, इनसे सोलह तत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है, जिन्हें विकार या विकृति कहते हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, ग्यारहवाँ मन और पाँच स्थूल भूत—ये ही सोलह विकार हैं। सांख्यशास्त्रके विद्वानोंका कहना है कि ये प्रकृति और उसके विकार ही सांख्यशास्त्रके चौबीस तत्त्व हैं। जो तत्त्व जिसमें उत्पन्न होता है, उसका उसीमें लय भी होता है। प्रकृति परमात्माके संनिधानसे अनुलोमक्रमके अनुसार तत्त्वोंकी रचना करती है (अर्थात् प्रकृतितसे महत्तत्त्व, महत्तत्त्वसे अहंकार, अहंकारसे सूक्ष्म भूत आदिके क्रमसे सृष्टि होती है); किन्तु उनका संहार विलोमक्रमसे होता है (अर्थात् सूक्ष्मका जलमें, जलका तेजमें, तेजका वायुमें लय होता है, इस तरह सभी तत्त्व अपने-अपने कारणमें लीन होते हैं)। जैसे समुद्रसे उठी हुई लहरें फिर उसीमें शान्त हो जाती हैं, उसी तरह सम्पूर्ण तत्त्व अनुलोमक्रमसे उत्पन्न होकर विलोमक्रमसे लीन होते हैं। इस प्रकार प्रकृतितसे ही जगत्की उत्पत्ति और उसीमें उसका लय होता है, इतना ही सृष्टि और प्रलयका विषय है। तत्त्ववेत्ता पुरुषको इसी प्रकार प्रकृतिके एकत्व और नानात्वका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये (प्रलयकालमें तो वह एक रूपमें रहती है और सृष्टिके समय नाना रूप धारण करती है)। इसी तरह पुरुष भी प्रलयकालमें एक ही रूपमें रहता है, किन्तु सृष्टिके समय प्रकृतिको प्रेरित करनेके कारण उसकी ही अनेकतासे वह स्वयं भी अनेक-ता प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृतिको नाना रूपोंमें परिणत करता है। प्रकृति और उसके विकारको क्षेत्र कहते हैं। चौबीस तत्त्वोंसे भिन्न जो पञ्चोत्तवाँ तत्त्व—महान् आत्मा है, वह क्षेत्रमें अधिष्ठाता-रूपसे निवास करता है। सनस्त क्षेत्रोंका अधिष्ठाण होनेके कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते हैं। वह अव्यक्तसंज्ञक सम्पूर्ण क्षेत्रोंको जानता है, इसलिये क्षेत्रज्ञ कहलाता है और प्राकृत शरीरमें अन्तर्धानीरूपसे प्रविष्ट है, इसलिये पुरुष नाम धारण करता है, वास्तवमें क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अव्यक्त (प्रकृति) है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता पञ्चोत्तवाँ तत्त्व आत्मा है। यही सांख्यदर्शन है। सांख्य-वादी प्रकृतिको ही जगत्का कारण मानते हैं और इसके चौबीस तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं; फिर उससे भिन्न जो पञ्चोत्तवाँ तत्त्व आत्मा है, उसका ज्ञान होता है।

इन और निपटका पालन न किया हो, वह सारो पूर्वाका राज्य दे तो भी उसे वह उपदेश नहीं देना चाहिये; किन्तु जितेन्द्रिय पुरुषको अवश्य इसका उपदेश करना चाहिये।

करात! तुमने मूर्खों पर ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया है, अब तुम्हारे मनमें तनिक भी भय नहीं होना चाहिये। यह ब्रह्म परम पवित्र, मोक्षरहित, आदि-मध्य और अन्तमें गून्ध, जन्म-मृत्युमें ब्रह्मचर्यावाला, निरामय, निर्णय तथा कल्याणमय है। वही सन्तान जनोंका तात्त्विक अर्थ है। उसका ज्ञान प्राप्त करके सोहका परित्याग कर दो। जित प्रकार आज तुमने मूर्खोंसे सनातन ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया है, इसी प्रकार मैंने भी सनातन हिरण्यगर्भ नामसे प्रसिद्ध ब्रह्मजोके मुखसे इसे प्राप्त किया था।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! नर्हिय वसिष्ठजीके वनाये अनुभार पञ्जीसर्वे तत्त्वस्वरूप परब्रह्मका स्वरूप मैंने तुम्हें बताया है। यहाँ वह ब्रह्म है, जिसे जान लेनेपर फिर इन संसारमें नहीं जाना पड़ता। जो उसे ठीक-ठीक नहीं

जानता, वही संसारमें बारंबार जन्म लेता है। जो जान लेता है, वह तो अजर-अमर हो जाता है। तात! यह परम कल्याणकारी ज्ञान मैंने देवाय नारदजीके मुंहसे सुना था, वही आज तुम्हें भी बताया है। ब्रह्माजोसे वसिष्ठजीको और वसिष्ठजीसे नारदजीको यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। नारदजीसे मिला हुआ यह सनातन ब्रह्मका उपदेश परमपद है; इसे जानकर अब तुम सब प्रकारके शोकका त्याग कर दो। राजन्! जो क्षर-अक्षरको जानता है, उसे संसारका भय नहीं होता; जो नहीं जानता, उसीको भय प्राप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस तत्त्वको न जाननेके कारण बारंबार संसारमें जाता है और हजारों योनियोंमें जन्म-मरणके कष्टका अनुभव करता है। वह देव, मनुष्य और पशु-पक्षी आदिकी योनियों में भटकता रहता है। अज्ञानरूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और भयंकर है, इसमें कितने ही प्राणी प्रतिदिन गोते खाते रहते हैं। तुम मेरा उपदेश पाकर इस भवसागरसे पार हो गये हो, अब रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते, (तुम शुद्ध सत्त्वमें स्थित हो)।

राजकुमार वसुमान्को एक ऋषिका धर्मविषयक उपदेश

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! एक समयकी बात है, उत्तकवंगका राजकुमार वसुमान् शिकार खेलनेके लिये एक निरान वनमें गया। वहाँ उसने मृगके वंगमें उत्पन्न हुए एक ऋषिको देना जो पान हो बँधे हुए थे। वसुमान्ने निकट जाकर उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर इन प्रकार प्रश्न किया—‘मगवन्! इस मागवान् शरीरमें जानके अधीन होकर रहनेवाले पुरुषका इन लोक और परलोकमें कित्त उपायने कल्याण हो सकता है?’

ऋषिने कहा—राजकुमार! धर्म ही सत्पुरुषोंका कल्याण करनेवाला तथा धर्म ही उनके आश्रय है। तीनों लोकके बराबर प्राणी धर्मसे ही उत्पन्न हुए हैं। तुम तो सदा विषयोंका ही रस लेना चाहते हो, मत्ता तुम्हारी कामनाओंकी पूर्णा मान्ता श्यों नहीं होनी, अपनी कुम्भित बुद्धिके कारण अभी तुम्हें कामनाओंमें मिश्रित-ही-मिश्रित दिशायो देती है, उदमें होनेवाले पतनकी ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। जैसे मान्ता फल चाहनेवालेके लिये मान्ते परिवर्तित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्मका फल चाहनेवालेको भी धर्मका परिवर्तन प्राप्त करना चाहिये। बुद्ध पुरुष यदि धर्मकी इच्छा करने भी तो उसके द्वारा विगुह कर्मका सम्पादन होना कठिन हो जाता है और साधुपुरुष यदि धर्मानुष्ठानकी इच्छा करे तो



उत्तके लिये कठिन-से-कठिन कर्म भी सहज हो जाते हैं।

वनमें रहकर भी जो प्रामीण सुलका उपभोग करना चाहता है, उसको प्रामीण ही समझना चाहिये तथा गाँवमें रहकर भी जो वनवासी मनुष्योंके-से बर्ताव में ही सुख मानता है, उसको गिनती वनवासियोंमें ही करनी चाहिये। पहले निवृत्ति और प्रवृत्तिमें जो गुण-अवगुण हैं उसका तुम अच्छी तरह निरचय कर लो, फिर एकाग्रचित्त होकर ध्येयपूर्वक मन, वाणी तथा शरीरद्वारा धर्मका अनुष्ठान करो। प्रतिदिन नियम और पवित्रताका पालन करते हुए अच्छे देश और कालमें साधु पुरुषोंको प्रार्थना और सत्कारपूर्वक अधिकसे-अधिक दान करना चाहिये। और उनमें दोगदृष्टि नहीं रखनी चाहिये, शुभकर्मोंद्वारा प्राप्त हुआ धन सत्यान्नको अर्पण करना चाहिये, श्रेय त्याग कर दान देना चाहिये, देनेके बाद परञ्चात्ताप अथवा दानका बलान नहीं करना चाहिये। दयालु, पवित्र, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, सरल, धीमि और कर्मसे शुद्ध वेदवेत्ता ब्राह्मण ही दानके लिये उत्तम पात्र है। अपनी ही जातिके उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई पतिद्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री उत्तम धीमि मानी गयी है। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदका विद्वान् होकर सदा छः कर्मों (यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह) का अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण कर्मसे शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया है। इस प्रकार देश, काल और पात्रका विचार करके दिये हुए दानसे धर्म होता है और देश-कालादिका

विचार न करनेपर पात्र और क्रियाकी विशेषतासे बही दान दाताके लिये अधर्मके रूपमें परिणत हो जाता है। जो मनुष्य अपने दोषोंका नाश करके धर्मका आचरण करता है, उसको धर्म परलोकमें सुख पहुँचाता है, सभी प्राणियोंके मनमें अच्छे और बुरे विचार रहते हैं, मनुष्यको चाहिये कि चित्तको अशुभ विचारोंको-ओरसे हटाकर शुभ विचारोंमें लगावे। अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार सबके द्वारा सब जगह किये जानेवाले सब प्रकारके कर्मोंका आदर करे, तुम भी अपने धर्मके अनुसार जिस कर्ममें अनुराग हो उसका इच्छानुसार पालन करो, मनको स्थिर करो, बुद्धिमान् और शान्त बनो तथा प्राप्त पुरुषोंके समान आचरण करो। जो सत्यपुरुषोंका सङ्ग करता है उसे जहाँके प्रतापसे ऐसे उपायकी प्राप्ति हो सकती है जो इस लोक और परलोकमें भी कल्याण करनेवाला हो। धृति (मनकी स्थिरता) ही कल्याणका मूल है, राजपि महापिय धृतिमान् न होनेके कारण ही स्वर्गसे नीचे गिरे और राजा ययाति पुष्य क्षीण हो जानेके बाद भी धृतिके ही बलसे उत्तम लोकोंको प्राप्त हुए। तुम भी धर्मज्ञ एवं तपस्वी विद्वानोंकी सेवा करो, इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हें कल्याणकी प्राप्ति हो जायगी।

मुनिके इस उपदेशको सुनकर राजकुमार वसुमान्ने अपने मनको कामनाओंसे हटाकर धर्ममें लगा दिया।

याज्ञवल्क्यका राजा जनकको उपदेश—सांख्य-मतके अनुसार सृष्टि, प्रलय और गुणोंका वर्णन

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! जो धर्म-अधर्मसे रहित, संशयशून्य, जन्म-मृत्युसे मुक्त, पुण्य-पापसे हीन, नित्य, निर्भय, कल्याणमय, अक्षर, अव्यय, पवित्र एवं बलेशरहित तत्त्व है, उसका आप हमें उपदेश कीजिये।

भीष्मजीने कहा—भारत ! इस विषयमें तुम्हें जनक-याज्ञवल्क्यका संवादरूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार देवदातके पुत्र महापशुशब्धी राजा जनकने प्रश्नका रहस्य समझनेवालोंमें श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्यजीसे पूछा—'विश्वर ! इन्द्रियाँ कितनी हैं ? प्रकृतिके कितने भेद हैं ? उससे परे कारण ब्रह्मका क्या स्वरूप है ? उससे भी पर निर्गुण तत्त्व क्या है ? सृष्टि और प्रलयका क्या स्वरूप है ? ये सब बतानेको कृपा कीजिये। मैं आपका कृपापात्र और अज्ञानी हूँ, इसीलिये प्रश्न करता हूँ। आप ज्ञानके भण्डार हैं, अतः आपहीसे इन सब विषयोंको सुननेको इच्छा हो रही है।'

याज्ञवल्क्यने कहा—राजन् ! तुम जो कुछ पूछते हो वह योग और सांख्यका परम रहस्यमय ज्ञान तुम्हें बताता है, सुनो। यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है; क्योंकि किसीके पूछनेपर जानकार मनुष्यको उसके प्रश्नका उत्तर देना ही चाहिये, यही सनातन धर्म है। प्रकृतियाँ आठ हैं और उनके विकार सोलह। अध्यात्मशास्त्रके विद्वानोंने अव्यक्त, महत्त्व, अहंकार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज—इन आठ तत्त्वोंको प्रकृति बतलाया है। अब विकारोंके नाम सुनो—आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, वाक्, हाथ, पैर, गुदा, लिङ्ग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इनमेंसे हस्त-पादादि कर्मन्द्रियों और शब्द-स्पर्शादि विषय विरोध कहलाते हैं तथा नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियोंको सहशेष कहते हैं, ये सब भिन्नकर पंद्रह हैं और इनके साथ सोलहवाँ मन है, ये ही सोलह विकार कहे गये हैं। राजन् ! अव्यक्त प्रकृतिके महत्त्व (सम्पत्-

बुद्धि) को उत्पत्ति होती है, इसे विद्वान् पुरुष पहली और प्राकृत सृष्टि कहते हैं। महत्तत्त्वसे अहंकार प्रकट होता है, यह दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्ध्यात्मक सृष्टि कहते हैं। अहंकारसे मन प्रकट होता है, जिसे तीसरी आहंकारिक सृष्टि कहते हैं। मनसे पांच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इसे चौथी मानसी सृष्टि कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पांच विषय पञ्चभूतोंसे उत्पन्न होनेके कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं, यह पांचवीं सृष्टि है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और प्राणेंद्रियको छठा सर्ग कहते हैं, यह ब्रह्मचिन्तात्मक (मानस) सृष्टि है। श्रोत्र आदिके बाद कर्मेंद्रियोंकी उत्पत्ति हुई है, यह सातवां सर्ग है। यह ऐन्द्रियक सृष्टि है। तदनन्तर, प्राणवायुके साथ ही समान, व्यान और उदानका ऊपरी भाग प्रकट हुआ, यह आठवां सर्ग है। तत्पश्चात् अपानवायुके साथ समान, व्यान और उदानका निम्न भाग उत्पन्न हुआ, इसे नवम सर्ग कहते हैं। आठवें और नवें सर्गका नाम आर्जवक सृष्टि है। राजन्! इस प्रकार मैंने नौ प्रकारकी सृष्टि और चौबीस प्रकारके तत्त्वोंका श्रुतिके अनुसार वर्णन किया है।

अब तत्त्वोंके संहारका वृत्तान्त सुनो। आदि-अन्तसे रहित नित्य, अक्षरस्वरूप ब्रह्माजी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और संहार करते हैं वह सब बातें बता रहा हूँ—ब्रह्माजी जब देखते हैं कि मेरे दिनका अन्त हो गया तो उनके मनमें रातको शयन करनेकी इच्छा होती है, इसलिये वे अहंकारके अनिमान्नी देवता रुद्रको संहारके लिये आज्ञा देते हैं, उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्माजीसे प्रेरित होकर प्रचण्ड सूर्यका स्वरूप धारण करते हैं और अपने बाह्य स्वरूप बनाकर अग्निके समान प्रखलित हो उठते हैं। तत्पश्चात् अपने तेजसे जरायुज, अण्डज, त्वेदज और उद्भिज्ज—इन चार प्रकारके प्राणियोंसे भरे हुए सम्पूर्ण जगत्को भस्म कर डालते हैं। पलक मारते-मारते चराचर विश्वका नाश हो जाता है और यह भूमि सब ओरसे कण्टकेको पीठकी तरह दिखायी देने लगती है। इसके बाद अनित्य बलवान् रुद्र जलनेसे बची हुई पृथ्वीको जलके महान् प्रवाहमें डुबो देते हैं। तदनन्तर, कालाग्निको लपटमें पड़कर सारा जल सूख जाता है। पानीके सूखते ही आग अत्यन्त भयानक रूप धारण करती है और सब ओर बड़े जोरसे प्रखलित हो उठती है। तब अत्यन्त बलवान् वायु-देव अपने आठों रूपोंमें प्रकट होकर उस प्रचण्ड वेगसे जलती हुई आगको निगल जाते हैं और ऊपर-नीचे तथा बीचमें सब ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तदनन्तर, वायुको आकाश, आकाशको मन, मनको अहंकार, अहंकारको महत्तत्त्व और महत्तत्त्वको प्रजापति शम्भु अपना प्राप्त बना लेते हैं। ये

शम्भु अग्निमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियोंसे सम्पन्न, सबके ईश्वर, ज्योतिःस्वरूप तथा अविकारी हैं। वे सब ओर हाय-परोंवाले, सब ओर आँख, मस्तक और मुखवाले तथा सब ओर कानवाले हैं, ये सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित हैं। ये सब प्राणियोंके हृदयस्थित आत्मा, अनन्त, परम महान् और सर्वेश्वर हैं तथा ये ही सम्पूर्ण विश्वको अपनेमें लीन करते हैं। इस प्रकार सबके अन्तमें सर्वस्वरूप, अक्षय, अव्यय, छिद्ररहित, भूत-भविष्य-वर्तमानके स्रष्टा और सब प्रकारके दोषोंसे रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं। राजन्! इस प्रकार मैंने तुम्हें यह तत्त्वोंके संहारका क्रम बतलाया है।

राजन्! प्रकृति स्वतन्त्रतापूर्वक खेल करनेके लिये अपनी ही इच्छासे सैकड़ों और हजारों गुणोंको उत्पन्न करती है। जैसे मनुष्य एक दीपकसे हजारों दीपक जला लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुषके एक-एक गुणसे अनेकों गुण उत्पन्न कर देती है। आनन्द, प्रीति, मन और इन्द्रियोंकी प्रसन्नता, सुख, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, दीनता और क्रोधका अभाव, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, उच्छ्रेय होना, मृदुता, लज्जा, चपलताका अभाव, शीघ्र, सरलता, सदाचार, अलोलुपता, हृदयमें सन्भ्रमका न होना, इष्ट-अनिष्टके वियोगका वखान न करना, दानके द्वारा मनको वशमें रखना, किसी वस्तुकी इच्छा न करना, परोपकार तथा सब प्राणियोंपर दया करना—ये सब गुण सत्त्वगुणसे उत्पन्न होते हैं। रूप, ऐश्वर्य, विग्रह, त्यागका अभाव, निर्दयता, सुख-दुःखके सेवनमें आसक्ति, पर-निन्दामें प्रीति, ऋण्डे मोल लेनेका स्वभाव, अहंकार, माननीय पुरुषोंका सत्कार न करना, चिन्ता, वैर वांधना, संताप करना, दूसरोंका धन हड़प लेना, निर्लज्जता, कुटिलता, भेदबुद्धि, कठोरता, काम, मद, दर्प और द्वेष—ये रजोगुणके कार्य बतलाये गये हैं। मोह, अप्रकाश (अज्ञान), तामिस्र (क्रोध), अन्धतामिस्र (भरण), बहुत तरहकी खानेकी चीजोंमें रुचि रखना, भोजनसे संतोष न होना, पीने योग्य वस्तुओंसे मन न भरना, सुगन्ध, वस्त्र, शय्या, आसन, विहार, दिनमें शयन, अधिक वक्तावाद और प्रमादमें मन लगाना, नाच-गान और वाजेमें प्रेम रखना तथा धर्मसे द्वेष करना—ये सब तामस गुण समझने चाहिये।

राजन्! सत्त्व, रज और तम—ये तीन प्रकृतिके गुण हैं। अध्यात्मशास्त्रका विचार करनेवाले विद्वान् कहते हैं कि सात्त्विक पुरुषको उत्तम, रजोगुणोंको मध्यम और तमोगुणोंको अधम स्थानकी प्राप्ति होती है, केवल पुण्य करनेसे मनुष्य ऊर्ध्वलोकमें गमन करता है, पुण्य और पाप दोनोंके अनुष्ठानसे मर्त्यलोकमें जन्म लेता है तथा केवल पापाचार करनेपर उसे अधोगति (नरक) में गिरना पड़ता है। अब मैं सत्त्व, रज

और तम—इन तीनों गुणोंके द्वन्द्व^१ और संनिपातका वर्णन करता है, सुनो—सत्त्वगुणके साथ रजोगुण, रजोगुणके साथ तमोगुण अथवा तमोगुणके साथ सत्त्वगुणका मेल देखा जाता है। केवल सत्त्वगुणसे युक्त मनुष्यको देवलोककी प्राप्ति होती है, रजोगुण और सत्त्वगुण दोनोंसे युक्त होनेपर वह मनुष्य-योनिमें जन्म पाता है तथा रजोगुण और तमोगुणसे युक्त जीवकी तिर्यग्योनिमें जन्म लेना पड़ता है। जिसमें तीनों गुणोंका संयोग रहता है, उसका भी मनुष्ययोनिमें ही जन्म होता है; किन्तु जो पुण्य और पापसे रहित होते हैं, उन महात्माओंको अक्षय, अविकारी, अमृतमय एवं सनातन स्थानकी प्राप्ति होती है। वह उत्तम पद ज्ञानियोंको ही मुलम होता है।

राजा जनकने पूछा—महामते! प्रकृति और पुरुष दोनों आदि-अन्तसे रहित, भूतिहीन और अवल हैं। दोनोंके ही गुण अप्रकम्प्य हैं तथा दोनों ही निर्गुण और अप्राह्य (बुद्धिके अगोचर) हैं। फिर एकको क्यों आपने अचेतन बताया और दूसरेको चेतन्ययुक्त संवन्न कहा है? आप पूर्णतया मोक्ष-धर्मका सेवन करते हैं; इसलिये आपहीके मूहसे मुझे सारा-का-सारा मोक्षधर्म सुननेकी इच्छा है। पुरुषके अस्तित्व, केवलत्व और प्रकृतिसे भिन्नत्वका स्पष्टीकरण कीजिये, वेहका आश्रय ग्रहण करनेवाले इन्द्रिय-देवताओंके सम्बन्धकी बात बताइये तथा मरनेवाले जीवके प्राणोंका जब उत्क्रमण होता है, तो उसे किस स्थानकी प्राप्ति होती है? इसपर भी प्रकाश डालिये। साथ ही पृथक्-पृथक् सांख्य और योगके ज्ञानका तथा मृत्युसूचक चिह्नोंका भी वर्णन कीजिये; क्योंकि सारा ज्ञान आपके लिये हस्तामलकवत् है?

याज्ञवल्क्यने कहा—राजन्! त्रिगुणमयी प्रकृति और गुणातीत पुरुषका यथार्थ तत्त्व मैं बता रहा हूँ, सुनो—तत्त्वदर्शा महात्मा कहते हैं, जिसका गुणोंके साथ सम्पर्क है वह गुणवान् है तथा जो गुणोंके संसर्गसे रहित है, वह निर्गुण कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति स्वभावसे ही गुणवती है, वह

गुणोंका अतिक्रमण नहीं कर सकती। उसे किसी वस्तुका ज्ञान नहीं होता। इसके विपरीत पुरुष स्वभावसे ही ज्ञानी है, यह सदा इस बातको जानता रहता है कि मेरे सिवा दूसरा कोई चेतन पदार्थ नहीं है। अतः क्षार होनेके कारण प्रकृति अचेतन (जड़) है और नित्य तथा अक्षर होनेके कारण पुरुष चेतन है। किन्तु जन्मतक वह अज्ञानवश बारंबार गुणोंका संसर्ग करता और अपने असङ्ग स्वरूपको नहीं जानता है, तबतक उसको भूति नहीं होती है। वह अपनेको प्रकृति (प्रजा) का कर्ता माननेके कारण प्रकृतिधर्मों कहलाता है। स्थावर पदार्थोंके बीजोंको उत्पन्न करनेके कारण उसे बीज-धर्मा कहते हैं तथा वह गुणोंकी उत्पत्ति तथा प्रलयका कर्ता होनेसे गुणधर्मा कहा जाता है। अध्यात्मशास्त्रको जाननेवाले सिद्ध यति सासी और अद्वितीय होनेके कारण पुरुषको केवल (प्रकृतिके सङ्गसे रहित) मानते हैं। उसे सुख-दुःखका अनुभव तो अभिमानके कारण होता है, वह कारणरूपसे नित्य और अव्यक्त है तथा कार्यरूपसे नित्य और व्यक्त है। सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करनेवाले और केवल ज्ञानका सहारा लेनेवाले कुछ सांख्यके विद्वान् प्रकृतिको एक और पुरुषको अनेक मानते हैं। पुरुष प्रकृतिसे भिन्न और नित्य है तथा अव्यक्त (प्रकृति) पुरुषसे भिन्न एवं अनित्य है। जैसे सौंसे भूँज अलग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुषसे भिन्न है। जैसे गूलर और उसके फोड़े एक साथ होनेपर भी अलग-अलग समझे जाते हैं तथा जिस प्रकार कमल झूलरी वस्तु है और पानी दूसरी, पानीके स्पर्शसे कमल लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृतिसे भिन्न और असङ्ग है। गँवार लोग इनके सहवास और निवासको ठीक-ठीक नहीं समझ पाते। जो प्रकृति और पुरुषको एक-दूसरेसे भिन्न नहीं जानते, वे बारंबार घोर नरकमें पड़ते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें सांख्यशास्त्रका मत बताया है, सांख्यके विद्वान् इसी प्रकार प्रकृति और पुरुषकी भिन्नताका विचार करके कैवल्यको प्राप्त हो गये हैं।

योग तथा मृत्युसूचक चिह्नोंका वर्णन

याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—राजन्! मैं सांख्यसम्बन्धी ज्ञान तो तुम्हें बतला चुका, अब योगशास्त्रका ज्ञान सुनो। सांख्यके समान कोई ज्ञान नहीं है और योगके समान दूसरा कोई बल नहीं है, दोनोंका लक्ष्य एक है और दोनों ही

१. दो गुणोंके मेलको द्वन्द्व और तीन गुणोंके मेलको संनिपात कहते हैं।

मृत्युका नाश करनेवाले हैं। जो इन दोनों शास्त्रोंको सर्वथा भिन्न मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। मैं तो विचारके द्वारा पूर्ण निरचय करके दोनोंको एक समझता हूँ। योगी जिस तत्त्वका साक्षात्कार करते हैं, सांख्यके विद्वान् भी उसीका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और ज्ञानको एक समझता है यही तत्त्व-वेत्ता है। योग-साधनामें श्रद्धा (प्राणराहित) की प्रधानता

प्राणको अपने वशमें कर लेनेपर योगी इसी शरीरसे दसों दिशाओंमें स्त्रच्छन्द विचरण कर सकते हैं। जबतक योगीका स्थूल शरीर रहता है तबतक वह योगबलसे सूक्ष्म शरीरके द्वारा लोक-लोकान्तरोंमें विचरण करता है। स्थूल देहको त्याग देनेपर उसे परम सुखरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। मनीषी पुरुषोंका कहना है कि वेदमें स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकारके योगोंका वर्णन है। स्थूल योग अग्निमा आदि आठ प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है और सूक्ष्म योग (गम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—इन) आठ गुणों (अंगों) से युक्त है। योगका प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम, जो सगुण और निर्गुणभेदसे दो प्रकारका होता है। मनकी धारणाके साथ किया जानेवाला प्राणायाम सगुण है और प्राणों (इन्द्रियों) के निग्रहपूर्वक मनको समाधिमें एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है। सगुण प्राणायाम मनको निर्गुण (वृत्तिशून्य) करके स्थिर करनेमें सहायक होता है। इस तरह (प्राणायामके द्वारा) मनको वशमें करके शान्त और जितेन्द्रिय होकर एकान्तवास करनेवाले आत्माराम ज्ञानीको परमात्माका ध्यान करना चाहिये। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये इन्द्रियोंके पाँच दोष हैं, इन दोषोंको दूर करे। फिर सम्पूर्ण इन्द्रियोंको मनमें स्थिर करके लय और विक्षेपको शान्त करे। मनको अहंकारमें, अहंकारको बुद्धिमें और बुद्धिको प्रकृतिमें स्थापित करे। इस प्रकार सबका लय करके केवल उस परमात्माका ध्यान करना चाहिये, जो रजोगुणसे रहित, निर्मल, नित्य, अनन्त, शुद्ध, छिद्ररहित, फूटस्थ, अन्तर्यामी, अनेक, अजर, अमर, अविनाशी, सबका शासन करनेवाला और सनातन ब्रह्म है।

राजन् ! अब समाधिमें स्थित हुए योगीके लक्षण सुनो, जैसे तृप्त हुआ मनुष्य मुँहसे सोता है, उसी प्रकार योगयुक्त पुरुषके चित्तमें सदा प्रसन्नता बनी रहती है—वह समाधिसे विरत होना नहीं चाहता, यही उसकी प्रसन्नताकी पहचान है। जैसे तेलसे भरा हुआ दीपक वायुशून्य स्थानमें एकतार जलता रहता है, उसकी शिखा स्थिरभावसे ऊपरकी ओर उठी रहती है, उसी तरह समाधिनिष्ठ योगी भी स्थिर होता है। जैसे बादलकी बरसायी हुई सूँदोंके आघातसे पर्वत चञ्चल नहीं होता, वैसे ही अनेकों विक्षेप आकर योगीको विचलित नहीं कर सकते। उसके पास बहूतसे शत्रु और नगाड़ोंकी

ध्वनि ही और तरह-तरहके गाने-बजाने किये जायें तो भी उसका ध्यान भङ्ग नहीं हो सकता, यही उसकी सुबुद्ध समाधि-की पहचान है। जैसे सावधान पुरुष दोनों हाथोंमें तेलसे भरा कटोरा लेकर सीढ़ीपर चढ़े और उस समय बहुत-से मनुष्य हाथमें तलवार लेकर उसे डराने-धमकाने लगें तो भी वह उनके डरसे एक बूँद भी तेल गिरने नहीं देता, उसी प्रकार योगी ऊँची स्थितिको प्राप्त हुआ एकाग्रचित्त योगी इन्द्रियोंकी स्थिरताके कारण समाधिसे विचलित नहीं होता। योगसिद्ध महात्माके ऐसे ही लक्षण समझने चाहिये। जो अच्छी प्रकार समाधिमें स्थिर हो जाता है वह अविनाशी परब्रह्मका साक्षात्कार करता है। इस साधनाके द्वारा मनुष्य देहत्यागके पश्चात् केवल (प्रकृतिके संसर्गसे रहित) परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है, यही योगियोंका योग है, इसे जानकर मनीषी पुरुष अपनेको कृतार्थ मानते हैं।

विदेहराज ! अब मैं विद्वानोंके बताये हुए मृत्युसूचक चिह्नोंका वर्णन करता हूँ। जिस पुरुषको अरुन्धती या ध्रुव नामक तारा, जिसे उसने पहले कभी देखा हो, न दिखायी पड़े तथा पूर्ण चन्द्रमाका मण्डल और दीपककी शिखा बाहिने भागसे खण्डित जान पड़े, वह केवल एक वर्षतक जीवित रह सकता है। जो लोग दूसरोंके नेत्रों में अपनी पराङ्मन न देख सकें, उनकी आयु भी एक ही वर्षतक शेष समझनी चाहिये। जिसकी बहुत बड़ी-बड़ी कान्ति भी फीकी पड़ जाय, बुद्धि नष्ट हो जाय, स्वभावमें भारी उलट-फेर हो जाय, जो काले रंगका होकर भी पीला पड़ने लगे तथा देवताओंका अनादर और ब्राह्मणोंके साथ विरोध करता हो, वह छः महीनेसे अधिक नहीं जी सकता। जो मनुष्य सूर्य और चन्द्रमाको मकड़ोंके जालेके चक्रके समान छिन्नयुक्त देखता है तथा देवमन्दिरमें बैठकर वहाँकी सुगन्धित वस्तुमें भी सड़े मुँदोंकी-सी दुर्गन्धका अनुभव करता है, वह सात दिनमें ही मृत्युकी प्राप्त हो जाता है। जिसकी नाक और कान टेढ़े हो जायें, दाँत और नेत्रोंका रंग बिगड़ जाय, जिसे बेहोशी होने लगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाय तथा जिसकी बायीं आँखसे अकस्मात् आँसू बहने और मस्तकसे धुआँ उठने लगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है।

इन मृत्युसूचक चिह्नोंको जानकर मनको वशमें रखने-वाला साधक रात-दिन परमात्माका ध्यान करे और मृत्यु-कालकी वाट जोहता रहे। ऐसा करनेसे वह उस सनातन पदको प्राप्त करता है, जो अशुद्ध चित्तवाले पुरुषोंके लिये दुर्लभ है तथा जो अक्षय, अजन्मा, अचल, अविनाशी, पूर्ण तथा कल्याणमय है।

१. किसी एक देशमें चित्तको स्थापित करनेका नाम धारणा है।

याज्ञवल्क्यद्वारा मोक्षधर्मका वर्णन

याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—राजन् ! तुमने जो अग्न्यवत परब्रह्मके विषयमें प्रश्न किया है, वह बड़ा गूढ़ है, ध्यान देकर मुनो—यहलेकी बात है, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान् सूर्यको आराधना की थी। एक दिन उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, 'ब्रह्मर्षे ! तुम्हारी जो इच्छा हो, वर माँग लो, बुलंभ होनेपर भी वह तुम्हें ईगा; क्योंकि तुम्हारे कठोर तपसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मेरी प्रसन्नता प्रायः बुलंभ है।' यह सुनकर मैंने कहा 'भगवन् ! मुझे यजुर्वेदका ज्ञान नहीं है, अतः मैं शीघ्र ही उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ।' तब भगवान् सूर्यने कहा 'विप्रवर ! मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ। तुम अपना मुँह खोलो, वायुदेवता सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी।' उनकी आज्ञासे मैंने अपना मुख फेलाया और उसमें सरस्वती प्रवेश कर गयीं। उनके प्रवेश करते ही मेरे शरीरमें जलन होने लगी और उसे शान्त करनेके लिये मैं पानीमें धुस गया। मुझे जलनसे कष्ट पाता देख भगवान् सूर्यने कहा 'तात ! थोड़ी देरतक और कष्ट सहन कर लो, फिर यह जलन अपने आप शान्त हो जायगी।' कुछ ही देरमें जब मैं पूर्ण शान्त हो गया तो भगवान्ने कहा 'द्विजवर ! परकीय शाखाओं और उपनिषदोंके साध सम्पूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होगा तथा तुम सम्पूर्ण शतपथका भी प्रणयन (सम्पादन) करोगे। इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्षमें स्थिर होगी और तुम उस अमोघ पदको प्राप्त करोगे, जिसे सांख्यवेत्ता तथा योगी भी प्राप्त करना चाहते हैं।'

यह कहकर भगवान् सूर्य चले गये और मैं उनका कथन सुनकर अपने घर लौट आया। बहौ आकर बड़ी प्रसन्नताके साथ मैंने सरस्वतीदेवीका स्मरण किया। मेरे स्मरण करते ही स्वर और ध्वञ्जन बगोसि विभूषित सरस्वतीदेवी अकारको आगे करके मेरे सामने प्रकट हो गयीं। तब मैंने उनके तथा भगवान् सूर्यके तिमिल अर्ध निवेदन किया और जहाँका चिन्तन करता हुआ बैठ गया। उस समय बड़े हृषिके साथ मैंने रहस्य-संग्रह और परिशिष्ट भागसहित समस्त शतपथका संकलन किया। तत्परचात् मेरे सौ शिष्योंने मुझसे उस (शतपथ) का अध्ययन किया। इस प्रकार सूर्यदेवके द्वारा उपदेश की हुई पंद्रह शाखाओंका ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छानुसार वेद तत्वका चिन्तन किया है।

एक समय वेदान्त-ज्ञानमें कुशल विरवावसु नामक गन्धर्व सत्य एवं सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है ?' इस बातका विचार करते हुए मेरे पास आये। आकर उन्होंने मुझसे



वेदविषयक कई प्रश्न किये। तब मैंने उनसे कहा 'गन्धर्व-राज ! समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते और जिसमें ही लीन हो जाते हैं, उस वेदप्रतिपाद्य भोग परमात्माको जो नहीं जानते, वे बारंबार जन्म लेते और मरते रहते हैं। साक्षात्पाद्य वेद पढ़कर भी जिससे वेदवेद्य परमेश्वरका ज्ञान नहीं हुआ तथा वेदवेत्ता होकर भी जिसने वेद्य-अवेद्यका तत्त्व नहीं जाना, वह मूर्ख केवल शास्त्र-ज्ञानका शोभ दोनेवाला है। पुरुषको तत्पर होकर बुद्धिके द्वारा प्रकृति और पुरुषका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये; जिससे बारंबार उसे जन्म-मरणके चक्करमें न पड़ना पड़े। संसारमें जन्म-मरणकी परम्परा कभी नहीं टूटती और वैदिक कर्मकाण्डमें बताये हुए सभी कर्म नरवर हैं—यह सोचकर नारावान् कर्मोंको त्याग दे और असत्यधर्मके सेवनमें संलग्न हो जाय। जो पुरुष सदा परमात्माके स्वहृषका विचार करता रहता है, वह प्रकृतिके बन्धनसे मुक्त होकर छद्मीसर्व तत्त्वरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी मनुष्य पच्चीसर्व तत्त्वरूप जीवात्मा और सनातन परमात्माकी भिन्न-भिन्न मानते हैं; किंतु साधु पुरुषोंकी दृष्टिमें दोनों एक हैं। परमपदको इच्छा रखनेवाले सांख्यके विद्वान् और योगी भी जन्म और मृत्युके भयसे जीवात्मा और परमात्मामें भेद-दृष्टि नहीं रखते।

विश्वामित्रमुने कहा—विश्वर ! ज्ञाने पञ्चासके तत्त्व जीवात्माको परमात्मासे अनिष्ट बतलाया है, किन्तु जीवात्मा ज्ञानरूप परमात्मा है या नहीं ? इस विषयमें संदेह है; अतः अब इस ज्ञानका स्पष्ट वर्णन कीजिये । मैंने मुनिवर ज्योतिष्य, अग्नि वेत्त, पराशर, बार्हस्पत्य, मृग, पञ्चगिण्ड, कपिल, मूत्र, शीतल, आश्विषेन, गर्ग, नारद, आशुरि, पुलस्त्य, मनसुमार तथा अनेके जित्ना कश्यपजीके मुखसे भी पहले इस विषयका प्रतिपादन सुना था । उसके बाद स्र, विश्वरथन, अत्यान्व देवता, पितर तथा ईश्वरि इसका ज्ञान प्राप्त किया । ये सब विद्वान् जेय तत्त्वको पूर्ण और नित्य बतलाते हैं । अब मैं इस विषयमें आनके विचार सुनना चाहता हूँ; क्योंकि आर विद्वानोंमें श्रेष्ठ, शास्त्रीके वक्ता तथा अत्यन्त बुद्धिमान हैं । ऐसा कोई विषय नहीं है, जिसे आन न जानते हों । वेदोंके तो आन महार ही माने जाते हैं । देवलोक और पितृलोकमें भी आनको श्रद्धा है । ब्रह्मलोकमें गये हुए ब्राह्मण तथा महर्षि भी आनकी महिमाका वर्णन करते हैं । साक्षात् भगवान् सूर्यने आनको वेद पढ़ाया है तथा आनने सम्पूर्ण सांख्य और योगशास्त्रका भी ज्ञान प्राप्त किया है । इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आन समस्त बराबरको जानकर पूर्णज्ञानी हो चुके हैं; इसलिये आनके ही मुखसे मैं इस तत्त्वज्ञानको सुनना चाहता हूँ ।

तब मैंने कहा—गण्डर्वश्रेष्ठ ! तुम बड़े मेधावी हो । इस समय मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो, उसका शास्त्रीय उत्तर सुनो—ब्रह्मि बड़ हैं, उसे पञ्चासका तत्त्व—जीवात्मा जानता है, किन्तु वह जीवात्माको नहीं जानता । सांख्य और योगके विद्वान् प्रकृतिको 'प्रधान' कहते हैं । सासी पुरुष विषेण्डृष्टिसे जीवात्मासे तत्त्व—प्रकृतिको, पञ्चासके अनेकों और उच्चोत्तरे परमात्मा को देखता है । किन्तु यदि जीवात्मा यह अभिमान धरता है कि मुझसे बड़कर कोई नहीं है, तो वह वेदना हुआ भी परमात्माको नहीं देख पाता; किन्तु परमात्मा मझ देखते रहते हैं । अब जीवात्माको यह ज्ञान हो जाना है कि मैं मिश्र हूँ और प्रकृति मुझसे सर्वथा मिश्र है, अब वह उससे बसक होकर उच्चोत्तरे तत्त्वरूप परमात्माका महत्त्वपर धर लेता है और अब उसे परमात्माका दर्शन हो जाता है, उस समय वह सर्वत्र विद्वान् होकर पुनर्जन्मके बन्धनसे मुक्तके लिये छुटकारा पा जाता है ।

विश्वामित्रमुने कहा—जानकश्रेष्ठ ! आनने सब देवताओंसे आदि कारण प्रकृते विषयमें जो यथावत् वर्णन किया है, वह सत्य, मित्र, सुन्दर तथा सबका कल्याण करनेवाला है । आनका मत मझ इन्हीं प्रकार जानने मिश्र रहे । अच्छा आनका मझ हो (अब मैं जानता हूँ) ।

जो ब्रह्मर विश्वामित्रने सांख्यश्रुतिसे मेरी ओर देखा

और बड़े हृषीमे मेरा अभिनन्दन किया । फिर मेरी प्रदक्षिणा करके वे स्वर्गलोकको चले गये । राजा जनक ! ब्रह्मादि देवताओंके लोकमें, पृथ्वीपर तथा पातालमें रहकर जो लोग कल्याणमय भोजनमार्गका आश्रय लिये हुए थे, उन सबको विश्वामित्रने मेरे बतलये हुए इस ज्ञानका उपदेश किया था । सांख्यज्ञानमें निष्ठा रखनेवाले सांख्यवेत्ता, योगधर्मका पालन करनेवाले योगी तथा अन्य जो मोक्षानिलाषी मनुष्य हैं, उन सबके लिये यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देनेवाला है । ज्ञानसे ही भोज होता है, अज्ञानसे नहीं; इसलिये यथार्थ ज्ञानका अनुसंधान करना चाहिये, जिसके द्वारा अपनेको जन्म-मृत्युरूप बन्धनसे छुटकारा मिल सके । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपवा नीच यौनिमें उत्पन्न हुए पुरुषसे भी यदि ज्ञान मिल सके तो प्राप्त करके मनुष्य उत्तरपरा सदा श्रेष्ठा रखे; क्योंकि श्रेष्ठानुमें जन्म और मृत्युका प्रवेश नहीं होता । ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं । ब्रह्मके ही मुखसे ब्राह्मण, ब्राह्मसे क्षत्रिय, नाभिससे वैश्य तथा परासे शूद्रको उत्पत्ति हुई है; अतः किसी भी वर्णको ब्रह्मसे मिश्र नहीं समझना चाहिये । मनुष्य अज्ञानके कारण ही कर्मानुसार योनियोंमें जन्म लेते और मरते हैं । उनका भयंकर अज्ञान ही उन्हें नाश प्रकारको प्राकृत योनियोंमें गिराता है । अतः सब ओरसे ज्ञान प्राप्त करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये । यह तो मैं तुमसे बत ही चुका हूँ कि सभी वर्णके लोग अपने-अपने आश्रयमें रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । ब्राह्मण हो या क्षत्रिय आदि दूसरा कोई वर्ण हो, जो ज्ञानमें स्थिर होता है, उसके लिये भोज नित्य प्राप्त है । राजन् ! तुमने जो पूछा था, उसका यथार्थ उत्तर मैंने दे दिया; अब तुम्हें शोकका परित्याग कर देना चाहिये । तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, वैसे बने इस ज्ञानमें पारंगत बनो ।

शौण्डीजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! परम बुद्धिमान् यानकश्रेष्ठजीके द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर निधिलानरेश-को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सत्कारपूर्वक मुनिकी प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा किया । जब मुनि चले गये तो मोक्षके जात्रा वेरातनन्दन राजा जनकने सुवर्णसहित एक करोड़ गौएँ दान की तथा बहुरूपसे ब्राह्मणोंकी एक-एक अञ्जलि रत्न प्रदान किया । तदनन्तर, निधिलाका राज्य पुत्रको सौंप दिया और स्वयं वे पतिधर्मका पालन करने लगे । उन्होंने सम्पूर्ण सांख्य और योगशास्त्रका स्वाध्याय करके यह निश्चय किया कि 'मैं अनन्त हूँ ।' फिर धर्म-अधर्म, पुष्य-माप, सत्य-असत्य तथा जन्म-मृत्युको प्राकृत (प्रकृतिजन्य एवं मिथ्या) समझकर केवल अपने गूढ स्वरूपको ही नित्य माना । राजन् ! सांख्य और योगके

सप्तर्षीके अनुसार उस ब्रह्मको इष्ट-अनिष्टसे भुक्त, स्थिर, परात्पर, नित्य एवं पवित्र मानते हैं; अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ। 'जो कुछ दिया जाता है, जो प्राप्त होता है, जो देता है और जो ग्रहण करता है, वह सब एकमात्र आत्मा ही है; उसके सिवा और है ही क्या?' सदा ऐसी ही मान्यता रखो, इसके विपरीत विचार मनमें न लाओ। जिसे अत्यन्त प्रकृतिका ज्ञान न हो, सगुण-निर्गुण परमात्माकी पहचान न हो, उस पुरुषको यज्ञोंका अनुष्ठान और तीर्थोंका सेवन करना चाहिये। स्वाध्याय, तप अथवा यज्ञसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती, (ये तो उनके तत्त्वको जाननेमें सहायक होते हैं)। इनके द्वारा परमात्माको जानकर मनुष्य महि-मान्वित होता है। महत्तत्त्वकी उपासना करनेवाले महत्तत्त्व-को और अहंकारके उपासक अहंकारको प्राप्त होते हैं; किंतु महत्तत्त्व और अहंकारसे भी घेष्ट कोई स्थान है,

जिसको प्राप्त करना सबके लिये आवश्यक है। जो शास्त्रके अनुसार चलनेवाले हैं, वे ही प्रकृतिते पर, नित्य, जन्म-मरणसे रहित, भुक्त एवं सबसत्त्वस्वरूप परमात्माका ज्ञान प्राप्त करते हैं। घुमिष्ठिर। यह ज्ञान मुझे तो राजा जनकसे मिला और जनकको याज्ञवल्क्यजीसे प्राप्त हुआ था। ज्ञान सबसे उत्तम साधन है, यज्ञ इसकी समानता नहीं कर सकते। मनुष्य ज्ञानके सहारे इस दुर्गम भवसागरके पार हो जाते हैं। यज्ञके द्वारा ये इसके पार नहीं जा सकते। अतः तुम प्रकृतिते पर, महत्, पवित्र, कल्याणमय, निर्मल तथा मोक्षस्वरूप ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान-यज्ञकी उपासना करनेसे तुम निरचय ही तत्त्वज्ञानी ऋषि बन जाओगे। पूर्वकालमें याज्ञवल्क्यने राजा जनकको जिस उपनिषद् (ज्ञान) का उपदेश दिया था, उसका भवन करनेसे मनुष्य सनातन, अविनाशी, शुभ, अमृतमय तथा शोकरहित ब्रह्मकी प्राप्त हो जाता है।

व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको उपदेश

राजा घुमिष्ठिरने पूछा—बाबाजी! व्यासपुत्र शुकदेवको किस प्रकार बराग्य हुआ था? इस विषयमें मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है; अतः मैं यह प्रसंग सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा आप मुझे अत्यन्त और व्यक्त तत्त्वोंका स्वरूप तथा अजन्मा भगवान्को लीलाएँ भी सुनाइये।

श्रीधर्मजी बोले—राजन्! पुत्र शुकदेवको सर्वथा निर्मय और सामान्य पुरुषोंका-सा आचरण करते देख धीव्यासजीने उन्हें सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कराया और फिर यह उपदेश दिया—'बेटा! तुम सर्वदा जितेन्द्रिय रहकर धर्मका सेवन करो; गर्मों-सर्दों और भूल-व्यासको सहन करते हुए प्राणोंपर विजय प्राप्त करो; सत्य, सरलता, अक्रोध, अबोधवशं, जितेन्द्रियता, तपस्या, अहिंसा और अक्रूरता आदि धर्मोंका विधिबद्ध पालन करो; सत्यपर डटे रहो तथा सब प्रकारकी कुदिलता छोड़कर धर्ममें अनुराग करो। देवता और अतिथियोंका सत्कार करके जो अन्न यद्ये उसीसे अपने प्राणोंकी रक्षा करो। देतो बेटा! यह शरीर जलके फेनकी तरह क्षणभङ्गुर है, इसमें जीव पक्षीकी तरह बसा हुआ है और यह प्रियजनोंका सहवास भी सदा रहनेवाला नहीं है; फिर भी तुम क्यों सोये पड़े हो? तुम्हारे शत्रु सर्वदा सावधान, जगे हुए और तुम्हारे छिद्रोंको देखनेमें लगे हुए हैं; परंतु तुम्हें बच्चोंकी तरह कुछ होसा ही नहीं है। दिन बीते जा रहे हैं और तुम्हारी आयु भी प्रतिदिन क्षीण हो रही है; इस तरह जीवन समाप्त हो रहा है, फिर भी तुम सावधान नहीं होते। नास्तिकताय परलोकसम्बन्धी कार्योंकी ओरसे तो सोये

पड़े रहते हैं, ये सर्वदा मांस और रक्तको बढ़ानेवाले संसारो धर्मोंमें ही लगे रहते हैं। जो बुद्धिके व्यामोहमें डूबे हुए पुरुष धर्मसे द्रव्य करते हैं और सदा कुपयमें ही चलते हैं, उनके अनुयायियोंको भी दुःख भोगना पड़ता है। इसलिये जो धर्मबलसे सम्पन्न महापुरुष संतुष्ट और भूतिपरायण रहकर सर्वदा धर्मपथपर ही आरुढ़ रहते हैं, तुम तो उन्हींकी सेवा करो और उन्हींसे अपना कर्तव्य पूछो। उन धर्मदर्शी विद्वानोंका मत मालूम करके तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धिते अपने कुपयामो मनको काबूम करो। जिनकी केवल वर्तमान सुखपर ही दृष्टि रहती है, उसका भावी परिणाम जिनके लिये बहुत दूर है और जिन्हें किसी प्रकारका मय नहीं है, ये सर्व-भक्षी बुद्धिहीन पुरुष कर्तव्यकर्तव्यको नहीं देख पाते। तुम धर्मरूप सीढ़ीके पात पहुँचकर धीरे-धीरे उत्तर चढ़ते जाओ। यदि तुम रेशमके कौड़ेकी तरह अपनेको बातनाओंसे सपेटते रहोगे तो कभी चेत नहीं सकोगे। जो नास्तिक और धर्ममर्यादाका भङ्ग करनेवाला हो, उस पुरुषको तुम निःशङ्क होकर उलाहते हुए बर्तकी तरह त्याग दो। काम, क्रोध, मृत्यु और जितमें पाँच इन्द्रियरूप जल भरा हुआ है, ऐसी विषयागाह्य नदीको तुम सात्विकी पृथिव्य नौकापर चढ़कर पार कर लो और इस प्रकार जन्मरूप दुर्गम पथसे पार हो जाओ। सारा संसार मृत्युसे ध्यात और मृदावस्थासे परिपीडित है, इसे तुम धर्ममयी नौकापर चढ़कर पार कर लो। मृत्यु बेटा हो अथवा सो रहा हो, मृत्यु उसे खोज ही लेती है। इस प्रकार जब मृत्यु अकस्मात् तुम्हारा नाश

करनेवाली है तो तुम चैनसे कैसे बैठे हो? मनुष्य भोग-सामग्रियोंके संचयमें लगा ही रहता है, उससे उनकी तृप्ति होने भी नहीं पाती कि भेड़िया जैसे भेड़के वच्चेको उठा ले जाय, उसी प्रकार मीत उसे उठा ले जाती है। यदि तुम्हें इस संसाररूप अन्धकारमें प्रवेश करना है तो हाथमें धर्म-बुद्धिरूप प्रज्वलित दीपक ले लो। जीवको अनेकों योनियोंमें जाते-जाते जैसे-तैसे मानवयोनियोंमें आकर यह ब्राह्मण-शरीर मिलता है; इसलिये बेटा! इसे सफल करना चाहिये। ब्राह्मणका शरीर भोगनेके लिये नहीं होता। उसे यहाँ तपस्याका फलेश सहनेके लिये और मरनेपर अनन्त सुख भोगनेके लिये रचा गया है। ब्राह्मण-शरीर बहुत समयतक तपस्या करनेपर मिलता है। वह मिल जाय तो विषयानुरागमें फँसकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिये; बल्कि सर्वदा स्वाध्याय, तपस्या और इन्द्रियनिग्रहमें तत्पर रहकर कुशल कर्मोंमें लगे रहना चाहिये। मनुष्योंका आयु रूप घोड़ा बीड़ा घला जा रहा है। इसका स्वभाव अव्यक्त है, कला-काष्ठादि इसके शरीर हैं, इसका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है, क्षण, वृष्टि, निमेष आदि इसके रोम हैं, शुक्ल और कृष्णपक्ष नेत्र हैं और मांस अङ्ग हैं। यदि तुम्हारी ज्ञानवृष्टि अंधोंके समान दूसरोंका अनुसरण करनेवाली नहीं है तो इसे निरन्तर बढ़े बेगसे बीड़ता देखकर तुम्हारा मन धर्ममें ही लगना चाहिये। जो लोग यहाँ धर्ममार्गको छोड़कर यथेच्छ आचरण करते हैं और दूसरोंको बुरा-भला कहते हुए निरन्तर कुमार्गमें ही चलते हैं, उन्हें मरनेके पश्चात् यातनादेह पाकर अनेक प्रकारकी नारकीय यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। जो राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम प्रजाका यथायोग्य पालन करता है, वह पुण्यात्माओंके लोकोंको प्राप्त होता है और अनेक प्रकारका धर्माचरण करनेके कारण उसे सुलभ एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है; किंतु जो गुरुजनोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन करते हैं, वे असत् पुरुष ऐसे लोकोंमें जाते हैं जहाँ मनुष्योंको पीड़ित किया जाता है और उन्हें भयंकर शरीररत्याले कुत्ते, लोहेकी चोंचोंवाले कौए और महाबली गिद्ध आदि रबतपान करनेवाले जीव मिल-जुलकर नोचते हैं। जो मनुष्य मनमानी चालसे चलकर स्वायम्भुव मनुको बौधी हुई धर्मकी वस' प्रकारकी मर्यादाको तोड़ता है, वह पापात्मा पितृलोकके असिपत्र वनमें जाकर अत्यन्त दुःख भोगता है।

१. मनुजीने धर्मके दस भेद ये बताये हैं—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धैर्यविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

धृति, क्षमा, मनोनिग्रह, पवित्रता, इन्द्रियसंयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध—ये धर्मके दस लक्षण हैं।

जो पुरुष अत्यन्त लोभी, असत्यसे प्रेम करनेवाला और सर्वदा कपटकी बातें बनानेवाला होता है तथा जो तरह-तरहके कूट साधनोंसे दूसरोंको दुःख देता है, वह पापात्मा घोर-नरकमें पड़कर अत्यन्त दुःख भोगता है। उसे अत्यन्त उष्ण महानदी वेंतरणीमें गोताल गाना पड़ता है, असिपत्र वनमें उसके अङ्ग छिन्न-भिन्न होते हैं और परशु वनमें उसे शयन करना पड़ता है। इस प्रकार वह महानरकमें पड़कर अत्यन्त आतुर हो उठता है। तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े-बड़े स्थानोंकी बात तो करते हो, परंतु परमपदपर तुम्हारी वृष्टि ही नहीं है। भविष्यमें जो मृत्युकी परिचारिका वृद्धावस्था आनेवाली है, उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। इस प्रकार हाथ-पर-हाथ घरे क्यों बैठे हो? देखो, तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आने-वाली है; इसलिये तुम परमानन्द-प्राप्तिके लिये प्रयत्न करो। तुम्हें मरनेपर यमराजकी आज्ञासे उनके सामने उपस्थित किया जायगा; इसलिये कृच्छ्रादि तप करके तुम धर्मोपार्जन-पूर्वक निरतिशय सुख पानेका उपाय कर लो। जिस समय तुम्हारे सामने यमराजका प्रचण्ड पवन चलेगा, उस समय वह अकेले तुम्हेंको यमके सामने ले जायगा; अतः तुम परलोकमें सुख देनेवाले धर्मका आचरण करो। पूर्वजन्ममें तुम्हारे सामने जो प्राणनाशक पवन चल रहा था, आज वह कहाँ है? अब भी जब मृत्युरूप महाभय उपस्थित होगा तो तुम्हें सब दिशाएँ घूमती दिखायी देंगी। बेटा! जब तुम यह शरीर छोड़कर चलने लगोगे तो व्याकुलताके कारण तुम्हारी श्रवणशक्ति भी नष्ट हो जायगी। इसलिये तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो। देखो, तुम्हारे देखते-देखते वृद्धावस्था तुम्हारे शरीरको जर्जर कर डालेगी, फिर रोग जिसका सारथि है, वह कालभगवान् आकर तुम्हारे शरीरको नष्ट कर देगा; इसलिये इस जीवनके नष्ट होनेसे पहले ही तुम खूब तपस्या कर लो। इस मनुष्यदेहमें रहनेवाले काम-क्रोधादि भयंकर भेड़िये चारों ओरसे तुमपर आक्रमण करेंगे, इसलिये तुम पुण्यसंचयका प्रयत्न कर लो। मरनेके समय तुम्हें पहले तो घोर अन्धकार दिखायी देगा, फिर पर्वतके शिखरपर सुनहले वृक्ष वीलेंगे; अतः तुम आत्मकल्याणके लिये शीघ्र ही प्रयत्न करो। ये इन्द्रियाँ, जो तुम्हें मित्रके समान जान पड़ती हैं, वास्तवमें तुम्हारी शत्रु हैं, ये अपनी वृष्टिमात्रसे तुम्हारी बुद्धि-को बिगाड़ देंगी। इसलिये तुम परम पुरुषार्थके लिये प्रयत्न करो। जिस धनको न राजाका भय है और न चोरका और जो मरनेपर भी साथ नहीं छोड़ता, उसीको प्राप्त करनेका तुम उद्योग करो। अपने कर्मोंद्वारा प्राप्त हुए उस पुण्यरूप धनको परलोकमें किसीको वांटकर नहीं देना पड़ता। वहाँ तो जो जिसकी धरोहर है, वह उसीको मिल जाती है। अतः

तुम ऐसा धन दो जो असय और अविनाशी हो और स्वयं भी उसी धनको इच्छदा करो।

‘बेटा! जीव अपने जीवनकालमें जो कुछ शुभागाम कर्म करता है, यहसि जानेपर वही उसके साथ रहता है। माता, पुत्र, बन्धु-बाण्धव या प्रियजनमेंसे कोई भी उसके साथ नहीं जाता। जिन सुवर्ण और रत्नादिको यह भले-बुरे कर्म करके इच्छे करता है, वे शरीर छूटनेपर उसके किसी काम नहीं आते। इस लोकमें अग्नि, वायु और सूर्य—ये तीन देवता जीवके शरीरका आश्रय करके रहते हैं, वे ही उसके धर्माचरणको देखनेवाले हैं और वे ही परलोकमें उसके साथी बनते हैं। दिन सब पदार्थोंको प्रकाशित करता है और रात्रि उन्हें छिपा लेती है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी वस्तुओंको स्पर्श करते हैं। अतः तुम सर्वदा अपने धर्मका ही पालन करो। परलोकमें किसीके भी कर्मका बंटवारा नहीं होता। वहाँ तो अपने किये हुए कर्मोंका ही फल भोगना होता है। वहाँ पुण्यात्मा लोग विमानोंपर चढ़कर यच्छे विहार करते हैं। इस प्रकार शुद्धचित्त पुत्र्य इस लोकमें जंसा-जंसा शुभ कर्म करते हैं; परलोकमें उसका वंसा-वंसा ही फल प्राप्त करते हैं। जो गार्हस्थ्य-धर्मका पालन करते हैं, वे प्रजापति, ब्रह्मर्षि अथवा इन्द्रके लोकमें जाते हैं।

‘पुत्र! तुम्हारी आयुके चौबीस वर्ष बीत गये, अब तुम्हारी अबस्था पचोस सालकी है। इसी प्रकार सारी आयु बीती जा रही है, तुम धर्मसंचय कर लो। देखो, काल तुम्हारी इन्द्रियोंको शक्तिको शिथिल कर रहा है; उसके नष्ट होनेसे पहले ही तुम धर्मोपार्जनके लिये शीघ्रता करो। जिस समय तुम शरीर छोड़कर जाओगे, उस समय तुम्हारे आगे-पीछे भी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा। जब तुम्हें इस प्रकार अकेले ही जाना है तो अपने या पराये शरीरोंसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है?

‘बेटा! मैंने अपने शास्त्रज्ञान और अनुमानके द्वारा तुम्हें इस समय जो उपदेश दिया है, तुम उसीके अनुसार आचरण करो। जो पुत्र्य अपने कर्मोंद्वारा केवल शरीरका ही पोषण करता है और किसी-न-किसी फलको आशासे वान देता है, वह तो अज्ञान और मोहजनित गुणोंसे ही बंधता है; किंतु जो शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करता है, वह परम पुत्र्यव्यं-रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कृतज्ञ पुत्र्यको जो भी उपदेश किया जाता है, वही सफल होता है। मनुष्य जो गाँवमें रहकर वहीके पदार्थोंसे प्रेम करने लगता है यह उसे बाँधनेवाला रस्सी ही है। पुण्यात्मालोग इसे काटकर उत्तम लोकोंको प्राप्त होते हैं, किंतु पापियोंसे यह नहीं कट

पाती। बेटा! जब तुम्हें भरना ही है तो इन धन, बन्धु और पुत्रादिके तुम क्या लोगे? अतः तुम बुद्धिरूप गुहामें छिपे हुए आत्मतत्त्वका अनुसंधान करो। सोचो तो सही, आज तुम्हारे सारे पूर्वज कहाँ चले गये? जो काम कल करना हो उसे आज कर लेना चाहिये और जो दोषहर बाद करना हो उसे सबेरे ही कर डालना चाहिये; क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि अभी इसका काम पूरा हुआ है या नहीं। जब मनुष्य मर जाता है तो सब सपने-सम्बन्धी और जातिवाले श्मशानतक साथ जाकर इसे अग्निमें झोंककर लोट आते हैं। अतः तुम परमतत्त्वकी प्राप्तिके इच्छुक बनो तथा प्रमाद और संशयको त्याग कर नास्तिक, निर्दय और पापबुद्धिमें स्थित पुरुषोंको बाँधें रखें; कभी भूलकर भी उनका साथ मत दो। इस प्रकार जब सारा संसार कालके अधीन है और उसके पंजेंमें पड़कर दुःख भोग रहा है, तो तुम अत्यन्त धर्म धारणकर सब प्रकार धर्मका आचरण करो।

‘जो पुत्र्य परमात्माके साक्षात्कारके इस साधनको अच्छी तरह जानता है, वह इस लोकमें स्वधर्मका पूर्णतया साधनकर परलोकमें सुख भोगता है। जो धर्ममार्गका ठीक-ठीक अनुसरण करता है, उसे कभी हानि नहीं होती। जो धर्मकी बुद्धि करता है, वही पण्डित है और जो धर्मसे च्युत होता है, वह मोहप्रस्त है। जो पुत्र्य स्वधर्मका आचरण करता है, वह अपने कर्मके अनुसार फल पाता है। इस प्रकार जो धर्मका पारंगामी है, वह स्वर्ग पाता है और जो कर्त्तव्यच्युत हो जाता है, उसे नरकमें गिरना पड़ता है। जो व्यथित भोगोंको त्यागकर इस शरीरसे तपस्या करता है, उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। मेरे विचारसे तो यही सबसे उत्तम फल है। इस संसारमें तुम्हारे हजारों माँ-बाप और संकड़ों स्त्री-पुत्रादि हो चुके हैं और आगे भी होंगे। परंतु वास्तवमें किसके वे और किसके हम? मैं तो अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है और न मैं ही किसी वृक्षके हूँ। ऐसा तो मुझे कोई भी दिखायी नहीं देता जिसका मैं होऊँ अथवा जो मेरा हो। तुम्हें अपने उन अतीत माता-पितादिके अथ कोई प्रयोजन नहीं है और न उन्हें ही तुमसे कोई प्रयोजन है। वे अपने-अपने कर्मानुसार उत्पन्न हुए थे, तुम भी अपने कर्मोंके अनुसार ही उत्पन्न हुए हो और अब जंसा कर्म करोगे वंसी ही गति प्राप्त करोगे। इस लोकमें धनी पुरुषोंके स्वजन तो स्वजन बने रहते हैं, किंतु दरिद्रियोंके स्वजन तो उन्हें जीवित रहनेपर भी छोड़ देते हैं। मनुष्य स्त्री-पुत्रादिके लिये ही पाप बटोरता है और उनके कारण ही इस लोक और परलोकमें दुःख भोगता है।

‘अतः बेटा! मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उसीके अनुसार तुम आचरण करो। यह लोक कर्मभूमि है—ऐसा

समझकर दिव्यलोकोंकी इच्छा करनेवाले पुरुषको शुभ कर्म ही करने चाहिये। यह कालरूप रसोइया बलात्कारसे सब जीवोंको पका रहा है। मास और ऋतु इसका कौंचा है, सूर्य अग्नि है और कर्मफलके साक्षी रात-दिन ईंधन हैं। जो धन दान या भोगके काम न आवे उससे क्या लाभ? जिस

शास्त्रश्रवणसे धर्माचरण न हो उससे क्या लाभ? और जो जितेन्द्रिय एवं संयमी न हो उस जीवात्मासे क्या लाभ?'

भीष्मजी कहते हैं—राजन्! व्यासजीके ये हितकारी वचन सुनकर शुकदेवजी अपने पिताको छोड़कर मोक्षतत्त्वका उपदेश करनेवाले राजा जनकके पास चल दिये।

दान, यज्ञ और तप आदि शुभकर्मोंकी उपयोगिताका वर्णन तथा शुकदेवजीके जन्मका वृत्तान्त

राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! दान, यज्ञ, तप और गुरुजनोंकी सेवा करनेसे जो फल मिलता है, वह मुझे सुनाइये।

भीष्मजी बोले—राजन्! जो लोग देवता और अतिथियोंसे प्रेम करते हैं अथवा उदार, साधुप्रेमी या यज्ञोंमें रक्षणा देनेवाले हैं, वे आत्मज्ञानियोंके कल्याणप्रद मार्गको प्राप्त होते हैं। जैसे तन्दुलहीन धानकी भूसी व्यर्थ हो जाती है वैसे ही धर्मको छोड़ देनेवाले मनुष्य व्यर्थ हैं। पाप-पुण्य मनुष्यका सङ्ग कभी नहीं छोड़ते। वह खड़ा होता है तो खड़े रहते हैं, दौड़ता है तो दौड़ने लगते हैं और काम करता है तो ये भी काम करने लगते हैं। इस प्रकार ये छायाके समान उसका अनुसरण करते रहते हैं। पहले जिस-जिसने जैसे-जैसे कर्म किये होते हैं, वह उनका उस-उस प्रकारसे अवश्य फल भोगता है। मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्मोंके द्वारा ही अपने सुख-दुःखका विधान करता है। वह जबसे गर्भमें आता है तभीसे अपने पूर्वजन्मके कर्मोंका फल भोगने लगता है। जिस प्रकार बछड़ा हजारों गौओंमेंसे भी अपनी माताको पहचान लेता है, उसी प्रकार पूर्वजन्ममें किया हुआ कर्म अपने कर्तक पास पहुँच जाता है। जैसे मैला वस्त्र पानीसे धोनेपर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार उपवासके द्वारा तपे हुए मनुष्यका चित्त स्वच्छ हो जाता है और उसे दीर्घकालीन अनन्त सुख प्राप्त होता है। जो लोग दीर्घकालतक तप करते हैं, उनके पाप दूर हो जाते हैं और उनकी सब कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं। जिस प्रकार आकाशमें पक्षियोंके और जलमें मछलियोंके चरण-चिह्न दिखायी नहीं देते, वैसे ही पुण्य करनेवालोंकी गतिका पता नहीं लगता। दूसरोंके उपालम्भ या कहनेसे खोटा कर्म करना ठीक नहीं, जो अपने लिये प्रिय, अनुरूप और हितकर हो वही कर्म करना चाहिये।

राजा युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी! व्यासजीके यहाँ महातपस्वी और धर्मात्मा शुकदेवजीका जन्म कैसे हुआ और

उन्होंने परमसिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी—वह प्रसंग मुझे सुनाइये। शुकदेवजीको बाल्यावस्थामें ही सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करनेकी बुद्धि कैसे हुई? संसारमें उनके सिवा किसी दूसरे पुरुषकी तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती। आप मुझे शुकदेवजीका माहात्म्य, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीतिसे क्रमशः सुनाइये।

भीष्मजी बोले—राजन्! मैं तुम्हें शुकदेवजीका जन्मवृत्तान्त, योगप्रभाव और अज्ञानियोंकी समझमें न आनेवाली उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूँ। एक बार मेरुपर्वतके शिखरपर भगवान् शंकर भयंकर भूतगणोंके साथ विहार कर रहे थे। वहाँ पर्वतराजकी पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही थीं। उन्हीं दिनों भगवान् कृष्णहृत्पायन उस पर्वतपर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इस संकल्पसे कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु अथवा आकाशके समान धीर्यशाली पुत्र प्राप्त हो, तपस्या आरम्भ की थी। वे सौ वर्षतक केवल वायु भक्षण करते हुए उमापति श्रीमहादेवजीकी आराधनामें लगे रहे। ऐसा कठोर तप करनेपर भी न तो उनके प्राण नष्ट हुए और न उन्हें थकान ही हुई। इससे तीनों लोकोंको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुझे तो यह वृत्तान्त भगवान् मार्कण्डेय-जीने सुनाया था। वे सदा ही मुझे देवताओंके चरित सुनाया करते थे।

भरतश्रेष्ठ! व्यासजीकी ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेवजी चड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन-ही-मन उन्हें अभीष्ट वर देनेका विचार किया। वे उनके पास आये और हँसते हुए कहने लगे, 'व्यासजी! तुम्हें अग्नि, वायु, भूमि, जल और आकाशके समान महान् एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा। वह भगवद्भावमें रंगा होगा, भगवान्में ही उसकी बुद्धि होगी, भगवान् ही उसके आत्मा होंगे और एकमात्र भगवान्को ही वह अपना आश्रम समझेगा। उसके तेजसे



तीनों लोक व्याप्त हो जायेंगे और वह महान् यश प्राप्त करेगा।'

यह उत्तम वर पानेके परचात् एक दिन सत्यवतीनवन धीव्यासजी अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणीमग्न्य कर रहे थे। इसी समय उनकी दृष्टि परमरूपवती घृताची अप्सरापर पड़ी। उसकी रूपसम्पत्तिने उनका मन आर्कषित कर लिया। इससे अकस्मात् उनका धीर्य अरणोंमें गिरा। उसीसे महातपस्वी शुकदेवजीका जन्म हुआ। वे घूमहीन अग्निके समान तेजस्वी थे। उसी समय नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी मूर्तिमती होकर मेरुपर्वतपर आयीं और उनका अपने जलसे अभिषेक किया। आकाशसे उनके लिये इण्ड और कृष्ण-मृगचर्म गिरे। विश्वावसु, तुम्हरे, नारद, हाहा, हूह आदि गन्धर्व उनके जन्मकी स्तुति गाने लगे। उस समय यहाँ इन्द्रादि लोकपाल, देवता, देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी आये। मायुने दिव्य पुष्पोंकी धर्या की, धर-अचर सारा संसार ह्यित



हो उठा। उनके जन्मकालमें ही पावंतीजीके सहित भगवान् शंकरने आकर उनका विधिवत् यज्ञोपवीत संस्कार कराया। देवराज इन्द्रने उन्हें प्रेमपूर्वक सुन्दर कमण्डलु और दिव्य वस्तु अर्पण किये।

इस प्रकार महामति शुकदेवजी ब्रह्मचारी होकर यहाँ रहने लगे। जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रहके सहित सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गये जैसे उन्हें व्यासजी जानते थे। उन्होंने बृहस्पतिजीको अपना गुरु बनाया और उन्हींसे सम्पूर्ण वेद, इतिहास और राजनीतिकी शिक्षा प्राप्तकर, उन्हें शिक्षणा देकर वे घर लौट आये। यहाँ ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए महान् तपस्या करने लगे। वे बाल्यावस्थामें ही अपने ज्ञान और तपस्याके कारण देवता और ऋषियोंके माननीय एवं संशय-छेदन करनेवाले बन गये थे। उनकी दृष्टि मोक्ष-धर्मपर थी। इसलिये गार्हस्थ्यपर अवलम्बित रहनेवाले तीनों आश्रमोंमें भी उनका मन प्रसन्न नहीं रहता या।

पिताकी आज्ञासे शुकदेवजीका मिथिलामें जाना और जनकके राजमहलमें उनका सत्कार होना


शीघ्रमजी कहते हैं—युधिष्ठिर। शुकदेवजी मोसका विचार करते हुए उसकी प्राप्तिकी इच्छासे अपने पिता व्यासजीके पास गये और उनके घरगोंमें प्रणाम करके बड़ी

विनयके साथ बोले 'प्रभो! आप मोक्षधर्ममें निपुण हैं; अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मेरे चित्तको परम शान्ति मिले।' पुत्रकी बात सुनकर महर्षि व्यासने कहा, 'बेटा! तुम

मोक्ष तथा अन्यान्य धर्मोंका अध्ययन करो।' पिताकी आज्ञासे शुक्रदेवजीने सम्पूर्ण योग और सांख्यशास्त्रका अध्ययन किया। जब व्यासजीने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म-तेजसे सम्पन्न और मोक्षधर्ममें कुशल हो गया है तथा समस्त शास्त्रोंमें इसकी ब्रह्माके समान गति हो गयी है, तब उन्होंने कहा 'वेदा! अब तुम मिथिलाके राजा जनकके पास जाओ, वे तुम्हें सम्पूर्ण मोक्ष-शास्त्रका ज्ञान करा देंगे। वहाँ जाते समय इन बातोंका ध्यान रखना, जिस मार्गसे साधारण मनुष्य चलते हैं, उसीसे तुम भी जाना; अपनी योगशक्तिका आश्रय लेकर आकाशमार्गसे कदापि यात्रा न करना। रास्तेमें सुख और सुविधाकी तलाशमें न पड़ना, विशेष-विशेष व्यक्तियों या स्थानोंकी खोज न करना; क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। राजा जनक हमारे यजमान हैं, इसलिये उनके पास किसी बातका अहंकार न प्रकट करना। वे जो आज्ञा दें, उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करना। उन्हें मोक्ष-शास्त्रका विशेष ज्ञान है, वे तुम्हारी सब शंकाओंका समाधान कर देंगे।'

पिताके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा मुनि शुक्रदेवजी मिथिलाकी ओर चल दिये। यद्यपि वे आकाश-मार्गसे सारी पृथ्वी लांघ जानेमें समर्थ थे, तो भी पंदल ही चले। मार्गमें उन्हें अनेकों पर्वत, नदी, तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े। सर्पों और वनजन्तुओंसे भरे हुए बहुते-से जंगलोंमें होकर जाना पड़ा। वे क्रमशः मेघवर्ष (इलावृत), हरिवर्ष और हेमवत (किंपुण्य) वर्षोंको पार करते हुए भारतवर्षमें आये। चीन और हूण आवि देशोंकी लांघकर उन्होंने आर्यावर्तमें प्रवेश किया। पिताकी आज्ञाके अनुसार वे पंदल ही सारा रास्ता तय कर रहे थे। मार्गमें बड़े सुन्दर-सुन्दर शहर और कसबे दिखायी पड़े, विचित्र-विचित्र ढंगके रत्न वृष्टिगोचर हुए; किंतु शुक्रदेवजी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे। इस प्रकार चलते-चलते वे धर्मात्मा राजा जनकके द्वारा पालित चिदेह-प्रान्तमें पहुँचे; उन्हें वहाँ पहुँचनेमें बहुत अधिक समय नहीं लगा। मिथिलाके बहुते-से गाँव उनकी वृष्टिमें आये, जहाँ अन्न, पानी तथा नाना प्रकारकी खाद्य-सामग्री प्रचुर-मात्रामें मौजूद थी। गाँव-गाँवमें धन-धान्यसे सम्पन्न गोशालाएँ थीं, जहाँ बहुत-सी गौएँ एकत्रित रहती थीं। उस प्रान्तमें सब ओर धानकी खेती लहलहा रही थी।

इस प्रकार चिदेह-राज्यको लांघते हुए शुक्रदेवजी जनककी राजधानी मिथिलाके सुरम्य उपवनके निकट पहुँचे। वहाँसे उन्होंने नगरमें प्रवेश किया और राजमहलकी पहली उधोड़ीपर पहुँचकर वे खेदके उसके भीतर घुसने लगे। उस



समय द्वारपालोंने उन्हें डाँटकर भीतर जानेसे रोक दिया। किंतु शुक्रदेवजीको इससे किसी प्रकारका खेद या क्रोध नहीं हुआ। वे चुपचाप वहाँ खड़े हो गये। रास्तेकी थकावट और सूर्यकी धूपसे उन्हें संताप नहीं पहुँचा था। भूल और प्यासमी उन्हें फट्ट नहीं दे सकी थी। उनके मनमें तनिक भी शिथिलता नहीं आयी थी। चेहरेपर ग्लानिका कोई चिह्न नहीं दिखायी देता था। वे धूपमें जहाँ-के-तहाँ खड़े थे, वहाँसे सायेकी ओर नहीं हटते थे।

उन द्वारपालोंमेंसे एकको अपने व्यवहारपर बड़ा दुःख हुआ। उसने मध्याह्नकालीन सूर्यके समान तेजस्वी शुक्र-देवजीको चुपचाप खड़े देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्रीय विधिसे अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महलकी दूसरी कक्षामें पहुँचा दिया। वहाँ एक जगह बैठकर शुक्रदेव-जी मोक्षधर्मका ही विचार करने लगे। उन्होंने यह नहीं देखा कि यहाँ धूप है या छाँह, उन दोनोंमें उनकी समान-वृष्टि थी। योड़ी ही देरमें राजमन्त्री हाथ जोड़े हुए वहाँ पधारे और उन्हें अपने साथ महलकी तीसरी उधोड़ीमें ले गये। वहाँ अन्तःपुरसे सटा हुआ एक बहुत सुन्दर बगीचा था, जिसका नाम था प्रमदावन। मन्त्रीने शुक्रदेवजीको वहाँ पहुँचाकर उनको वँठनेके लिये सुन्दर आसन बता दिया और स्वयं वे प्रमदावनसे वाहर निकल आये।

मन्त्रीके जाते ही पचास वारांगनाएँ दौड़कर शुकदेवजीकी सेवामें उपस्थित हुईं। वे सब-की-सब बड़ी सुन्दरी और नवयुवती थीं। उनकी वेध-भूषा बड़ी ही मनोहारिणी थी। उनके सुन्दर अङ्गोंपर सात रंगकी महीन साड़ियाँ शोभा पा रही थीं। वे बातचीत करने, नाचने तथा गानेमें बड़ी प्रवोध थीं और मन्द मूसकानके साथ बातें करती थीं। हृषमें तो वे अप्सराओंको भी मात कर रही थीं। उन्होंने पाद्य-अर्घ्य आदि निवेदन करके विधिपूर्वक शुकदेवजीका पूजन किया और उन्हें समयानुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्ण तृप्त किया। भोजनके पश्चात् वारांगनाएँ उन्हें साथ लेकर प्रमदावनकी संर कराने और वहाँकी एक-एक वस्तुको दिखाने लगीं। उस समय वे हँसती, गाती तथा नाना प्रकारकी शौडाएँ करती थीं। इस प्रकार सभी स्त्रियाँ उनकी सेवामें संलग्न थीं।



किंतु अरणीसे उत्पन्न हुए शुकदेवजीका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध था, वे इन्द्रियों और क्रोधपर विजय पा चुके थे। उनके मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं था और वे सदा अपने कर्तव्यका पालन किया करते थे। इसलिये उन स्त्रियोंकी सेवासे उन्हें न हर्ष होता था, न क्रोध। तदनन्तर, उन सुन्दरी रमणियोंने देवताओंके बंठनेयोग्य एक दिव्य पलंग, जिसमें रत्न जड़े हुए थे तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे, शुकदेवजीको सोनेके लिये दिया; किंतु शुकने पहले हाथ-पैर धोकर संघ्योपासन किया, उसके बाद पवित्र आसनपर बैठकर वे भोक्त-तत्त्वका ही विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गये। रात्रिका प्रथम भाग जबतक बीत न गया,

तबतक वे ध्यानमें ही लगे रहे। फिर योगशास्त्रके नियमानुकूल रात्रिके मध्यम भागमें नींद लेने लगे। पुनः जब ब्राह्ममुहूर्त हुआ तो वे उठ बैठे और शौचादि नित्य नियमोंसे नियुक्त होकर स्त्रियोंसे घिरे होनेपर भी ध्यानमग्न हो गये। इस प्रकार ध्यासनन्दनने दिनका शेष भाग और समूची रात उस राजभवनमें रहकर व्यतीत की।

राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा उनके प्रश्नका समाधान करना

भीष्मजी कहते हैं—भारत। तदनन्तर, राजा जनक अन्तःपुरकी सम्पूर्ण स्त्रियों और पुरोहितको आगे करके मन्त्रियोंके साथ शुकदेवजीके पास आये। आगे-आगे आसन और माना प्रकारके रत्न लिये पुरोहितजी चल रहे थे और राजा अपने मस्तकपर अर्घ्यपात्र लिये पीछे आ रहे थे। मुखुत्रके निकट पहुँचकर उन्होंने पुरोहितके हाथसे-वह सर्वतोमन्न नामक रत्नजटित आसन, जिसपर बहुमूल्य बिछावन बिछा हुआ था, ले लिया और अपने हाथसे शुकदेवजीको बंठनेके लिये दिया। जब ध्यासनन्दन राजाके दिव्य हुए आसनपर विराजमान हो गये तो उन्होंने शास्त्रके अनुसार उनका पूजन आरम्भ किया। पहले पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके

राजाने उन्हें एक गो दान की। शुकदेवजीने भी विधिपूर्वक की हुई वह पूजा स्वीकार करके राजाका कुशलसमाचार पूछा, फिर अनुचरोंसहित उनके स्वात्म्यके सम्बन्धमें जिज्ञासा की, इसके बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा जनक अपने सेवकोंके साथ जमीनपर बैठ गये और हाथ जोड़कर शुकका कुशल-सञ्जल पूछते हुए बोले 'भूने! किस निमित्तसे आपका यहाँ शुभागमन हुआ है?'

शुकदेवजीने कहा—राजन्! आपका कल्याण हे। मेरे पिताजीने मुझसे कहा है कि 'यदि तुम्हें प्रकृति या निमित्त धर्मके विषयमें कोई संदेह हो तो बुरत ही मेरे सम्बन्धमें विदेहराज जनकके पास चले जाओ।'



अतः तुम्हारी सब शङ्काओंका समाधान कर देंगे।' उनको इस आज्ञासे ही मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूँ। आप धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर दीजिये। ब्राह्मणका क्या कर्तव्य है? मोक्षका क्या स्वरूप है? तथा उसकी प्राप्ति—तपसे होती है या ज्ञानसे?

जनकने कहा—तात! ब्राह्मणको जन्मसे लेकर 'जो-जो कर्म करने चाहिये, उनको सुनिये—यज्ञोपवीत संस्कार हो जानेके बाद ब्राह्मण-बालकको वेदाध्ययन करना चाहिये। अध्ययन-कालमें गुरुकी सेवा, तपका अनुष्ठान और ब्रह्मचर्यका पालन—ये तीन उसके परम कर्तव्य हैं। स्वाध्याय और तर्पणके द्वारा वह पितरोंके ऋणसे मुक्त होनेका यत्न करे, किसीकी निन्दा न करे और इन्द्रियसंयमपूर्वक रहे। जब वेदाध्ययन समाप्त हो जाय तो गुरुको दक्षिणा दे, उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कारके पश्चात् घर लौटे। घर आनेपर विवाह करके गार्हस्थ्य-धर्मका पालन करे और अपनी ही स्त्रीके साथ सम्बन्ध रखे। किसीसे ईर्ष्या न रखकर न्यायानुकूल वर्तव्य करे तथा अग्निकी स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे। तत्पश्चात् जब पुत्र-पौत्र उत्पन्न हो जायें तो वनमें रहकर वानप्रस्थ-धर्मका पालन करे। उस समय भी शास्त्र-विधिसे अनुसार अग्निहोत्र करे और अतियोगसे प्रेम रखे। इसके बाद धर्मज्ञ पुत्र शास्त्रानुसार अग्निहोत्रकी अग्नियोंका

अपनेमें ही आरोप करके निहृन्द्वा हो जाय और वीतराग होकर ब्रह्मचिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाले संन्यासाश्रममें प्रवेश करे।

शुकदेवजीने पूछा—यदि किसीको ब्रह्मचर्याश्रममें ही सनातन ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति हो जाय और हृदयके राग-द्वेषादि द्वन्द्व दूर हो जायें तो भी क्या उसके लिये शेष तीन आश्रमोंमें रहना आवश्यक है?

जनकने कहा—जैसे ज्ञान-विज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरुसे सम्बन्ध हुए बिना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसारसागरसे पार उतारनेवाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौकाके समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञानको पाकर भवसागरसे पार और कृतकृत्य हो जाता है। पहलेके विद्वान् लोकमर्यादा तथा कर्म-परम्पराकी रक्षा करनेके लिये चारों आश्रमोंके धर्मोंका पालन करते थे। इस तरह क्रमशः नाना प्रकारके कर्मोंका अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मोंकी आसवितका परित्याग करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। अनेकों जन्मोंसे कर्म करते-करते जब सम्पूर्ण इन्द्रियाँ पवित्र हो जाती हैं तो शुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य पहले ही आश्रममें मोक्षरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्याश्रममें ही तत्त्वका साक्षात्कार हो जाय तो परमात्माको चाहनेवाले जीवन्मुक्त विद्वान्के लिये शेष तीन आश्रमोंमें जानेकी क्या आवश्यकता है? विद्वान्को चाहिये कि वह राजस और तामस दोषोंका परित्याग कर दे और सात्त्विक मार्गका आश्रय लेकर बुद्धिके द्वारा आत्माका दर्शन करे। जो सम्पूर्ण भूतोंमें अपनेको और अपनेमें सम्पूर्ण भूतोंको देखता है, वह संसारमें कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह तो घोंसलेको छोड़कर उड़ जानेवाले पक्षीकी भाँति इस देहसे पृथक् हो निहृन्द्वा एवं शान्त होकर परलोकमें अक्षयपद (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता है।

तात! इस विषयमें राजा ययातिकी कही हुई गाथा सुनिये, जिसे मोक्षशास्त्रके विद्वान् द्विज सदा याद रखते हैं। 'अपने भीतर ही आत्मज्योतिका प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वह ज्योति सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर समान रूपसे स्थित है। समाधिमें अपने चित्तको भलीभाँति एकाग्र करनेवाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है। जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं दूसरे किसी प्राणीसे भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेषसे रहित हो गया है, वह तत्काल ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रियाके द्वारा किसीकी बुराई नहीं करना चाहता, उस समय वह ब्रह्मरूप हो जाता है। जब मोहमें डालनेवाली ईर्ष्या, काम और मोहका त्याग करके पुरुष अपने मनको आत्मामें लगा देता

है, उस समय उसे ब्रह्मानन्दका अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयोंमें तथा संपूर्ण प्राणियोंके ऊपर मनुष्यका समान भाव हो जाय और सुख-दुःखःसादि द्वन्द्व उसके चित्तपर प्रभाव न डाल सकें, उस समय वह साक्षात् ब्रह्म हो जाता है। जिस समय निन्दा-स्तुति, लोहा-सोना, सुख-दुःख, शीत-उष्ण, अर्थ-अनर्थ, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरणमें समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्यको ब्रह्मभावकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगोंको फेलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार संन्यासियोंको मनके द्वारा इन्द्रियोंपर नियन्त्रण रखना चाहिये। जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हुआ घर दीपकके प्रकाशसे स्पष्ट होल पड़ता है, उसी तरह बुद्धि-रूपी दीपकको सहायतासे अज्ञानसे आवृत आत्माका साक्षात् दर्शन हो सकता है।'

बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ शुकदेवजी ! उपर्युक्त सारी बातें मुझे आपके अंदर दिखायी देती हैं। इनके अतिरिक्त भी जो कुछ जाननेयोग्य विषय हैं, उसे आप ठीक-ठीक जानते हैं। ब्रह्मर्षे ! मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजीकी कृपा और शिक्षासे विषयोंसे परे हो चुके हैं। उन्हींकी कृपासे मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं

आपको स्थितिको पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य—ये सब अधिक हैं; किन्तु आपको इस बातका पता नहीं है। ज्ञान-स्वभावके कारण, संशयसे अथवा मोक्ष न मिलनेके काल्पनिक भयसे मनुष्यको विज्ञान प्राप्त हो जानेपर भी मोक्षको प्राप्ति नहीं होती। जब सत्संगके द्वारा विशुद्ध निश्चयको प्राप्त होनेसे संदेह दूर हो जाता है, तब हृदयकी गाँठ खुल जानेपर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है; परंतु विशुद्ध निश्चयके बिना किसीको भी परब्रह्मको प्राप्ति नहीं होती। आप सुख-दुःखमें कोई अन्तर नहीं समझते। आपके मनमें तनिक भी लोभ नहीं है। आपको न नाच देखनेकी उत्कण्ठा होती है, न गीत सुनने की। आपका कहीं भी राग है ही नहीं। न बन्धुओंके प्रति आसक्ति है, न भयदायक पदार्थोंसे भय। महामाग ! आपकी दृष्टिमें मिट्टीका डेला, पत्थर और सुवर्ण सब एक-सै हैं। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान् भी आपको अक्षय एवं अनामय पथ (मोक्षमार्ग) पर स्थित मानते हैं। ब्रह्मन् ! ब्राह्मण होनेका जो फल है और मोक्षका जो स्वरूप है उसीमें आपकी स्थिति है, अब और क्या पूछना चाहते हो ?

शुकदेवजीका पिताके पास लौट आना तथा व्यासजीका अपने शिष्योंको स्वाध्यायकी विधि और शुकदेवको अनध्यायका कारण बताना

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! राजा जनककी यह बात सुनकर शुकदेव अन्तःकरणवाले शुकदेवजी एक बड़ निश्चयपर पहुँच गये और बुद्धिके द्वारा आत्माका साक्षात्कार करके उसीमें स्थित होकर श्रुतार्थ हो गये। उस समय उन्हें बड़ा सुख मिला, बड़ी शान्तिका अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वतको लक्ष्य करके वायुके समान वेगसे चुपचाप उत्तर दिशाकी ओर चल दिये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने पिता व्यासजीका परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा, जहाँ वे शिष्योंसे घिरे हुए विराजमान थे और सुमन्नु, वैशम्पायन, जैमिनि तथा पैलको वेद पढ़ा रहे थे। उसी समय व्यासजीको भी बुद्धि शुकदेवजीपर पड़ी, जो प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी दिखायी देते थे तथा धनुषसे छूटे हुए धाणकी तरह धूसों और पर्वतोंमें अटके बिना ही चलें आ रहे थे। निकट आ जानेपर अरणी-नाभंसे उत्पन्न हुए महामुनि शुकने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया और उनके शिष्योंसे भी योग्यतानुसार मिलकर पितासे मिथिलाका

सारा समाचार कह सुनाया। वहाँ राजा जनकके साथ जो संवाद हुआ था, वह सब बड़ी प्रसन्नतासे उन्होंने निवेदन किया। इसके बाद मुनिवर व्यासजी पुत्र और शिष्योंको पढ़ाते हुए हिमालयके शिलरपर ही रहने लगे।

एक समयकी बात है व्यासजीके शिष्य, जो वेदाध्ययनसे सम्पन्न, शान्त, जितेन्द्रिय, साङ्गवेदमें पारंगत और तपस्वी थे, उन्हें चारों ओरसे घेर कर बँठ गये और हाथ जोड़कर कहने लगे 'गुरुदेव ! आपकी कृपासे हमलोग अत्यन्त तेजस्वी हो गये हैं और हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है। आप एक बार और कृपा करके हमें कुछ उपदेश कीजिये, यही हमारी इच्छा है !'

व्यासजीने कहा—प्रिय शिष्यगण ! जो ब्रह्मलोकका अक्षय निवास चाहता हो, उसका कर्तव्य है कि पढ़नेकी इच्छासे आपे हुए ब्राह्मणको सदा ही वेद पढ़ावे। तुमलोग बहुतसे होकर वेदोंका विस्तार करो। जो ब्रह्मचर्यव्रतका पातन न करता हो, जिसका मन वशमें न हो तथा जो शिष्य-

भावसे पढ़ने न आया हो, उसे वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिये। जिसे वेद पढ़ाना हों, उसमें शिष्यके ये सभी गुण मौजूब हैं कि नहीं—इस बातको अच्छी तरह जान लेना चाहिये। जिसके सवाचारकी जांच नहीं की गयी है, उसे कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिये। जैसे आगमें तपाने, छीलने और कसौटीपर कसनेसे अच्छे सोनेकी परख होता है, उसी प्रकार उत्तम कुल और गुण आविके द्वारा शिष्योंकी परीक्षा करनी चाहिये। तुमलोग अपने शिष्योंको किसी अनुचित या मयदायक काममें न लगाना। तुम्हारे पढ़ानेपर भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी और पढ़नेमें जो जैसा परिश्रम करेगा, उसीके अनुसार उसको सफलता मिलेगी। अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिये कि सब मनुष्य दुःखोंसे पार हो जायें, सबका कल्याण हो। ब्राह्मणको आगे रखकर चारों वर्णोंको उपदेश देना चाहिये। वेदाध्ययन बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है, इसको अवश्य करना चाहिये। जो मोहवश वेदके पारंगत ब्राह्मणकी निन्दा करता है, वह उसके अनिष्ट-चिन्तनके कारण निस्संवेद परामभवको प्राप्त होता है। जो धार्मिक विधिका उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो धर्मके अनुसार उत्तर नहीं देता, उन दोनोंमेंसे एककी मृत्यु हो जाती है अथवा एक द्वेषका पात्र होता है। यह सब मैंने तुमलोगोंसे स्वाध्यायकी विधि बतलायी है, इसको याद रखनेसे शिष्योंका महान् उपकार हो सकता है।

भीष्मजी कहते हैं—अपने गुरु व्यासजीके इस उपदेशको सुनकर उनके तेजस्वी शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और आपसमें एक दूसरेका आलिङ्गन करके व्यासजीसे बोले 'भगवन्! आपने भविष्यमें हमारे हितका विचार करके जो बातें बतलाई हैं, ये हमारे मनमें बैठ गयी हैं, हम अवश्य उनका पालन करेंगे। महामुने! यदि आप पतंग करें तो हमलोग वेदोंका विभाग करनेके लिये इस पर्वतसे पृथ्वीपर जाना चाहते हैं।' शिष्योंकी बात सुनकर व्यासजीने धर्म और अर्थसे युक्त पचनोंमें उत्तर दिया 'पृथ्वीपर या देवलोकांमें जहाँ तुम्हारी इच्छा हो जा सकते हो, किंतु प्रमाद न करना; क्योंकि वेदमें बहुत-सी प्ररोचनात्मक श्रुतियाँ हैं।'

सत्यवादी गुरुकी यह आज्ञा पाकर सभी शिष्योंने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी प्रवक्षिणा करके वहाँसे प्रस्थान किया। पृथ्वीपर उतरकर उन्होंने घातुर्होत्र (अग्निहोत्रसे लेकर सोमयागतकके कर्मों) का प्रचार किया और गृहस्थाधर्ममें प्रवेश करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके यज्ञ कराते हुए वे बड़े आनन्दसे रहने लगे। द्विजातियोंमें उनका विशेष सम्मान था। यज्ञ कराना और

वेदोंकी शिक्षा देना ही उनकी जीविका थी और इन्हीं कर्मोंके कारण उन्होंने संसारमें बड़ी ख्याति प्राप्त की थी।

शिष्योंके चले जानेपर व्यासजीके साथ उनके पुत्र शुकदेवके सिवा कोई नहीं रह गया था। वे चुपचाप किसी सोच-विचारमें पड़े एकान्तमें बैठे थे। उसी समय महातपस्वी नारदजी उस आश्रमपर आकर व्यासजीसे मिले और मीठी वाणीमें बोले 'ब्रह्मर्षे! आज इस आश्रमपर वेद-मन्त्रोंका



स्वर क्यों नहीं सुनायी देता? आप अकेले चुपचाप किस विचारमें पड़े हैं? क्यों चिन्तित-से होकर बैठे हैं? वेदध्वनि न होनेके कारण अब इस पर्वतकी पहले-जैसी शोभा नहीं रही। देवर्षियोंसे सेवित होनेपर भी यह शैल ब्रह्मघोषके बिना भीलोंके घरकी तरह शीहीन जान पड़ता है। यहाँके ऋषि, देवता और महायती गन्धर्व भी वेदध्वनिसे वियुक्त होकर अब पहलेकी भाँति शोभायमान नहीं दिखायी देते।' नारदजीकी बात सुनकर व्यासजी बोले 'देवर्षे! आपने जो कुछ कहा, वह मेरे मनके अनुकूल ही है, आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। आप सर्वज्ञ, सब कुछ देखनेवाले और सर्वज्ञकी बातें जाननेके लिये उत्कण्ठित रहनेवाले हैं। तीनों लोकोंमें जो बात होती है, वह सब आपको मालूम रहती है; इसलिये मुझे आज्ञा दीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे भी बतलाइये; क्योंकि अपने प्यारे शिष्योंसे विछोह होनेके कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नहीं है।'

नारदजीने कहा—व्यासजी! वेद पढ़कर उसका अभ्यास (आवृत्ति) न करना वेदाध्ययनका मूल (दोष) है, व्रतका पालन न करना ब्राह्मणका मूल है, बाह्यिक देशके लोग पृथ्वीके मूल हैं और नये-नये दृश्य देखने या नयी-नयी बातें जाननेकी उत्कण्ठा रखना स्त्रीके लिये दोषकी बात है; अतः आप अपने बुद्धिमान् पुत्रके साथ सदा वेदोंका स्वाध्याय करते रहें।

भीष्मजी कहते हैं—नारदजीकी बात सुनकर परम धर्मात्मा व्यासजीने 'बहुत अच्छा' कहकर उनको आज्ञा स्वीकार की और अपने पुत्र शुकदेवके साथ त्रिभुवनकी गुरुजायमान करते हुए—ते अर्धे स्वर्गसे वेद-मन्त्रोंका उच्चारण

करने लगे। इतनेहीमें समुद्री हवासे प्रेरित होकर बड़े जोरकी आंधी उठी। तब व्यासजीने अनप्याय-काल बताकर अपने पुत्रको उस समय वेद पढ़नेसे रोक दिया। उनके मना करने-पर शुकदेवजीके मनमें इसका कारण जाननेके लिये प्रबल उत्कण्ठा हुई। यह देखकर व्यासजीने कहा 'बेटा! जब बाहरकी हवा प्रचण्ड वेगसे चल रही हो, उस समय वेदमन्त्रोंका ठीक-ठीक सत्वर उच्चारण नहीं हो पाता। उस वृशामें जगत्को उस घायुसे महान् भयकी प्राप्ति होती है; इसीलिये ब्रह्मदेवतालोग आंधीके समय वेदाध्ययन नहीं करते।' यह कहकर जब घायु शान्त हो गयी तो व्यासजी पुत्रको अध्ययनके लिये याता देकर आकाशगङ्गाके तटपर चले गये।

शुकदेवजीकी नारदजीका उपदेश

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! व्यासजीके चले जानेके बाद उस आश्रमपर एकांत स्थानमें बैठकर स्वाध्यायमें लगे हुए शुकदेवजीके पास वैश्याय नारदजी पधारे। उन्हें उपस्थित देख शुकने वेदोक्तविधिसे अर्घ्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया। तब नारदजीने प्रार्थन होकर पूछा 'वत्स! मैं तुम्हारा कौन-सा उत्तम एवं प्रिय कार्य कहूँ?' यह सुनकर शुकदेवजीने कहा, 'इस लोकमें जो परम कल्याणका साधन हो उसीका उपदेश देनेकी कृपा करें।'

नारदजीने कहा—एक समय पवित्र अन्तःकरणवाले ऋषियोंने तरवज्जान प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रश्न किया, उसके उत्तरमें भगवान् सनत्कुमारने यह उपदेश दिया—'विद्याके समान कोई नेत्र नहीं है, सत्यके समान कोई तप नहीं है, रागके समान कोई दुःख और त्यागके समान कोई सुख नहीं है। पापकर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यकर्मोंका धनुष्पान करना, साधु-गुरुवर्गके-से बर्तव्य और सदाचारका पालन करना, यह सर्वोत्तम ध्येय (कल्याण) का साधन है। जहाँ सुखका नाम भी नहीं है—ऐसे इस मानव-शरीरको पाकर जो विषयोमें आसक्त होता है वह मोहको प्राप्त होता है। विषयोंका संयोग दुःखरूप ही है, वह दुःखोंसे छुटकारा नहीं दिला सकता। विषयासक्त पुरुषकी बुद्धि चञ्चल होती है, वह मोहजालका विस्तार करती है और मोहजालसे बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोकमें भी दुःख ही भोगता है। जिसे कल्याण-प्राप्तिकी इच्छा हो, उसे प्रत्येक उपायसे काम और क्रोधकी दबाना चाहिये; क्योंकि ये दोनों दोष कल्याणका नाश करनेके लिये उद्यत रहते हैं। मनुष्यको चाहिये कि तपकी ऋणसे, लक्ष्मीकी इहासे, विद्याकी मान-अपमानसे और



अपनेको प्रमादसे बचावे। क्रूर स्वभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, आत्माका ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है और सत्यसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है; किंतु हितकारक बात कहना सत्यसे भी बढ़कर है। जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो, उसीको मैं सत्य मानता हूँ। जो नये-नये काम आरम्भ करनेका

संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मनमें कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तुका संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान् है और वही पण्डित है। जो अपने वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्त भावसे विषयोंका अनुभव करता है, जिसका चित्त शान्त, निर्विकार और एकाग्र है तथा जो आत्मीय कहलानेवाले देह और इन्द्रियोंके साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विलग-सा ही रहता है, वह मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याणकी प्राप्ति होती है। जिसकी किसी प्राणीकी ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसीका स्पर्श तथा किसीसे बातचीत नहीं करता, वह परम कल्याणको प्राप्त होता है। किसीकी हिंसा न करे, सबके साथ मित्रताका भाव रखे और यह मनुष्य-जन्म पाकर किसीके साथ वैर न करे। जो आत्मतत्त्वका ज्ञाता तथा मनको वशमें रखनेवाला है, उसे चाहिये कि किसी वस्तुका संग्रह न करे, संतोष रखे और कामना तथा चञ्चलताका त्याग कर दे; इससे परम कल्याणकी सिद्धि होगी। तात शुकदेव ! तुम संग्रहका त्याग करके जितेन्द्रिय हो जाओ तथा उस पदको प्राप्त करो जो इहलोक और परलोकमें भी निर्भय तथा सर्वथा शोकरहित हो। जिन्होंने भोगोंका परित्याग कर दिया है, वे कभी शोकमें नहीं पड़ते; इसलिये प्रत्येक मनुष्यको भोगासक्तिका त्याग करना चाहिये। सौम्य ! जो भोगासक्तिका त्याग कर देता है, वह दुःख और संतापसे छूट जाता है। जो अजित (परमात्मा) को जीतनेकी इच्छा रखता हो, उसे तपस्वी, जितेन्द्रिय, मननशील, संयतचित्त और विषयोंमें अनासक्त रहना चाहिये। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयोंमें आसक्त न होकर सदा एकान्तवास करता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख (मोक्ष) को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि यैयुनमें सुख माननेवाले प्राणियोंके बीचमें रहकर भी अकेले रहनेमें ही आनन्द मानता है, उसे ज्ञानानन्दसे तृप्त समझना चाहिये; जो ज्ञानानन्दसे तृप्त होता है, वह कभी शोकमें नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मोंके अधीन रहता है, वह शुभ कर्मोंके अनुष्ठानसे देवता होता है, शुभ-अशुभ दोनोंके आचरणसे मनुष्योंनिमें जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मोंसे पशु-पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है। उन-उन योनियोंमें जीवको सदा जरा, मृत्यु तथा नाना प्रकारके दुःखोंका शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसारमें जन्म लेनेवाला प्रत्येक प्राणी संतापकी आगमें पकाया जाता है—इस बातकी ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देते ? यहाँ विभिन्न वस्तुओंके संग्रहकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि संग्रहसे महान् दोष प्रकट होता है। रेशमका कीड़ा अपने संग्रहके कारण ही ब्रधनमें पड़ता

है। स्त्री, पुत्र और कुटुम्बमें आसक्त रहनेवाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे जंगलके बड़े हाथी तालाबके दलदल-में फँसकर दुःख उठाते हैं। जिस प्रकार महान् जालमें फँसकर पानीके बाहर आये हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेहजालमें फँसकर अत्यन्त कष्ट उठाते हुए इन प्राणियोंकी ओर दृष्टि डालो। संसारमें कुटुम्ब, स्त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह—सब कुछ पराया है, सब नाशवान् है; इसमें अपना क्या है—सिर्फ पाप और पुण्य। जहाँ ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं, कोई सहारा देनेवाला नहीं, राहखर्च नहीं तथा अपने देशका कोई साथी नहीं है, जो अन्धकारसे व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्गपर तुम अकेले कैसे चल सकोगे ? जब तुम परलोककी राह लोगे, उस समय कोई तुम्हारे पीछे नहीं जायगा, केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहाँतक साथ देगा। अर्थ (परमात्मा) की प्राप्तिके लिये ही विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यन्त विस्तृत ज्ञानका सहारा लिया जाता है; जब अर्थकी सिद्धि (परमात्माकी प्राप्ति) हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गाँवमें रहनेवाले मनुष्यकी विषयोंके प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बाँधनेवाली रस्तीके समान है, पुण्यात्मा पुरुष उस रस्तीको काटकर आगे—परमार्थके पथपर बढ़ जाते हैं; किंतु जो पापी हैं वे उसे नहीं काट पाते। यह संसार एक नदीके समान है, रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह है। गन्ध उस नदीकी कीचड़, शब्द जल और स्वर्गरूपी दुर्गम घाट है। शरीररूपी नौकाकी सहायतासे उसे पार किया जा सकता है। समा इसको खेनेवाली लगी और धर्म इसको स्थिर करनेवाली रस्ती (लंगर) है। यदि त्यागरूपी पवनका सहारा मिले तो इस नदीको शीघ्र पार किया जा सकता है। यह देह पञ्चभूतोंका घर है, इसमें हृदियोंके खंभे लगे हैं, यह नस-नाड़ियोंसे बँधा हुआ, रक्त-भाँससे लिपा हुआ और चमड़े-से मढ़ा हुआ है। इसमें मल-मूत्र भरा है, जिसके कारण दुर्गन्ध आती रहती है। यह जरा और शोकसे व्याप्त, रोगोंका आश्रय, आतुर, रजोगुणरूपी धूलसे ढका हुआ और अनियंत्रित है, अतः तुम्हें इसकी आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् पञ्चमहाभूतोंसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये उनसे भिन्न नहीं है। पञ्चमहाभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, बुद्धि और सत्त्वादि गुण—इन सब्रह तत्त्वोंके समुदायको अव्यक्त कहते हैं। इनके साथ ही (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द तथा बुद्धि और अहंकारके आश्रयभूत) सम्पूर्ण विषयोंको मिलानेसे जो चौबीस तत्त्वोंका समूह होता है, उसे व्यक्ताव्यक्त-समुदाय कहते हैं। जो इन सब तत्त्वोंसे युक्त है, उसका नाम पुरुष है। जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम,

मुख-बुल और जीवन-भरणके तत्त्वको ठीक-ठीक समझता है, वही उत्पत्ति और प्रलयके तत्त्वको भी यथार्थरूपसे जानता है। ज्ञानके सम्बन्धमें जितनी बातें हैं, उन्हें परम्परासे जानना चाहिये। जो पदार्थ इन्द्रियोंद्वारा जने जाते हैं, वे ध्यस्त कहलाते हैं और जो इन्द्रियोंके अगोचर होनेके कारण अनुमानसे जाननेमें आते हैं, उनको अध्यस्त कहते हैं। जिनकी इन्द्रियाँ अपने वशमें हैं वे उसी प्रकार संतुष्ट रहते हैं, जैसे वर्षाकी धारासे प्यासे हुए जीव। ज्ञानी पुरुष लोकमें अपनेको और अपनेमें लोकको विस्तृत देखते हैं, उन्हें भूत और भविष्यका भी ज्ञान होता है तथा उनकी वह ज्ञानशक्ति कभी नष्ट नहीं होती। उसीके प्रभावसे वे सब अवस्थायोजमें सम्पूर्ण

भूतोंका दर्शन करते हैं। जो ज्ञानके बलसे मोहजनित नाना प्रकारके क्लेशोंके पार हो गया है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंके सहवासमें आकर भी कभी अशुभ कर्मसे लिप्त नहीं होता। किन्तु अज्ञानी मनुष्य मयानीकी भाँति कर्मसे बँधता और मयित होता रहता है। वह प्रारब्धकर्मके उदय होनेपर नाना प्रकारके कष्ट भोगता हुआ संसारमें घब्रकी भाँति घूमता रहता है। इसलिये तुम कर्मसे निवृत्त, सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी सिद्ध और भाव-अभावसे रहित हो जाओ। बहुत-से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्याके बलसे नवीन बन्धनोंका उच्छेद करके अनन्त सुख देनेवाली अबाध सिद्धि (मूर्धित) को प्राप्त हो चुके हैं।

नारदजीका शुकदेवको उपदेश और शुकदेवका सूर्यलोकमें जानेका निश्चय

नारदजी कहते हैं—शुकदेव! शास्त्र शोकको दूर करनेवाला है, वह शान्तिमय और कल्याणकारक है। जो अपने शोकका नाश करनेके लिये शास्त्रका श्रवण करता है, वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी होता है। शोकके हज़ारों और सपके संकड़ों स्थान हैं, वे प्रतिदिन मूढ़ पुरुषोंपर ही अपना प्रभाव डालते हैं; बुद्धिमान् मनुष्योंपर उनका जोर नहीं चलता। इसलिये तुम्हारे अनिष्टका नाश करनेके लिये मैं कुछ उपदेश करता हूँ, सुनो—यदि बुद्धि अपने वशमें रहे तो शोक सदाके लिये दूर हो जाता है। बुद्धिहीन मनुष्य ही अभ्रिय वस्तुकी प्राप्ति और प्रिय वस्तुका वियोग होनेपर मन-ही-मन दुखी होते हैं। जो वस्तु भूतकालके गर्भमें छिप गयी (नष्ट हो गयी), उसके गुणोंका स्मरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो आदरपूर्वक उसके गुणोंका चिन्तन करता है, उसकी आसक्ति नहीं छूटती। जहाँ चित्तकी आसक्ति बढ़ने लगे उस वस्तुको अनिष्टकारी सम्भरकर उसमें दोषदृष्टि कर लेनी चाहिये। ऐसा करनेपर उससे शोष ही बँराग्य हो जाता है। जो बीताे बातके लिये शोक करता है, उसे अर्थ, धर्म और यशकी प्राप्ति नहीं होती; वह उसके अभावका दुःखमात्र उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियोंको उत्तम पदार्थोंसे संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं, किसी एकपर ही यह शोकका अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकालमें मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई वस्तुके लिये निरन्तर शोक करता रहता है, यह एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता है; इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। जो अपनी बुद्धिसे विचारकर संसारमें सदा होनेवाले जन्म-मरणके प्रवाहपर दृष्टि रखते हैं, वे कभी उसके लिये

आँसु नहीं बहाते। जो सबको सम्यक् दृष्टिसे देखता है, उस ज्ञानीको कभी अधुपात होता ही नहीं। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुःख उपस्थित हो जाय और उसे दूर करनेमें कोई उपाय काम न दे सके तो उसके लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये। दुःख दूर करनेकी सबसे अच्छी दवा यही है कि उसके लिये चिन्ता न की जाय। चिन्ता करनेसे वह घटता नहीं बल्कि और बढ़ता जाता है। इसलिये मानसिक दुःखको बुद्धिसे और शारीरिक कष्टको औषध-सेवनके द्वारा नष्ट करना चाहिये। शास्त्रज्ञानके प्रभावसे ही ऐसा होना सम्भव है। दुःख पड़नेपर बालकोंकी तरह रोना उचित नहीं। स्व, धोवन, जीवन, धनसंग्रह, आरोग्य और प्रियजनोंका सहवास—ये सब अगित्य हैं, विद्वान् पुरुषको इनमें आसक्त नहीं होना चाहिये। सारे देशपर आये हुए संकटके लिये किसी एक ध्यवित्तको शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकटको दालनेका कोई उपाय दिखलायी वे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक होता है, किन्तु जो सुख और दुःख दोनोंकी ही चिन्ता छोड़ देता है, वह असय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। धनके उपार्जनमें बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षामें भी सुख नहीं है तथा उसे खर्च करनेमें भी क्लेश ही होता है, अतः धनको प्रत्येक अवस्थामें दुःखदायक समझकर उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नहीं करनी चाहिये। मनुष्य धनका संग्रह करते-करते पहलेकी अपेक्षा ऊँची स्थितिको प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते, वे और अधिककी आशा लिये हुए ही मर जाते हैं; इसलिये विद्वान् पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं। संग्रहका अन्त है विनाश, ऊँचे चढ़नेका अन्त

नीचे गिरना, संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मरण। तृष्णाका कभी अन्त नहीं होता, संतोष ही परम सुख है, अतः विवेकी पुरुष संतोषको ही परम धन मानते हैं। आयु लगातार बीत रही है, वह क्षणभर भी विश्राम नहीं लेती। जब अपना शरीर ही अनित्य है तो दूसरी किस वस्तुको नित्य समझा जाय? जो मनुष्य सब प्राणियोंके भीतर मनसे परे परमात्माका चिन्तन करते हैं, वे अपनी संसारयात्रा समाप्त करके परम पदका साक्षात्कार करते हुए शोकके पार हो जाते हैं। जैसे जंगलमें नयी-नयी घासकी खोजमें चरते हुए पशुको सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार कामनाओंकी खोजमें लगे हुए अतृप्त मनुष्यको मौत उठा ले जाती है; इसलिये सबको दुःखसे छूटनेका उपाय सोचना चाहिये। जो शोक छोड़कर कार्य आरम्भ करता है और किसी व्यसनमें आसक्त नहीं होता, उसकी सुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोगकालमें ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि विषयोंमें किंचित् सुखका अनुभव होता है, उसके बाद उनमें कुछ भी नहीं रहता। प्राणियोंको एक-दूसरेसे संयोग होनेके पहले कोई दुःख नहीं रहता; जब संयोगके बाद वियोग होता है, तभी सबको दुःख हुआ करता है; इसलिये विवेकी पुरुषको अपने स्वरूपमें स्थित होकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिये। धैर्यके द्वारा शिशु और उदरकी, नेत्रके द्वारा हाथ और पैरकी, मनके द्वारा आँख और कानकी तथा सद्विद्याके द्वारा मन और वाणीकी रक्षा करनी चाहिये। जो पूजनीय तप अन्व मनुष्योंमें आसक्तिको हटाकर शान्तभावसे विचरण करता है तथा जो अध्यात्मविद्यामें परायण, निष्काम और लोभहीन रहकर एकाकी विचरता रहता है, वही सुखी और विद्वान् है।

जब मनुष्य सुखको दुःख और दुःखको सुख समझने लगता है, उस अवस्थामें बुद्धि, नीति अथवा पुरुषार्थसे भी उसकी रक्षा नहीं होती। अतः मनुष्यको ज्ञान-प्राप्तिके लिये सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये; क्योंकि यत्न करनेवाला पुरुष कभी दुःखमें नहीं पड़ता। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है, उसे जरा, मृत्यु और रोगसे बचाना चाहिये। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले वीर पुरुषके छोड़े हुए तीखे बाणोंकी तरह शरीरको पीड़ित करते हैं। तृष्णासे व्यथित, दुःखी एवं विवश होकर भी जीनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यका शरीर विनाशको ओर ही खिंचता चला जाता है। जैसे नदियोंका प्रवाह भागेकी ओर ही बढ़ता जाता है, पीछेकी ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्योंकी आयुका अपहरण करते हुए बीतते चले जा रहे हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षोंका यह परिवर्तन देहधारी

जीवोंको जरा-जीर्ण कर रहा है, वह एक क्षणके लिये भी विश्राम नहीं लेता। सूर्य त्वर्य अजर हैं, किंतु प्रतिदिन उदय और अस्त होकर प्राणियोंके सुख और दुःखका नाश करते रहते हैं। ये रात्रियाँ कितनी ही अपूर्व तथा असम्भावित प्रिय-अप्रिय घटनाएँ लिये आती और चली जाती हैं। यदि जीवके किये हुए कर्मोंका फल पराधीन न होता तो वह जो चाहता, उसकी वही कामना पूरी हो जाती। बड़े-बड़े संयमी, चतुर और बुद्धिमान् मनुष्य भी अपने कर्मोंके फलसे वंचित होते देखे जाते हैं तथा गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष भी किसीके आशीर्वादके विना ही समस्त कामनाओंसे सम्पन्न दिखायी देते हैं। कोई-कोई मनुष्य तो सदा प्राणियोंकी हिंसामें ही लगा रहता और संसारको धोखा दिया करता है, फिर भी वह सुख ही भोगता है। कितने ही ऐसे हैं, जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने आप पहुँच जाती है और कुछ लोग काम करके भी मनचाही वस्तु नहीं पाते। यह सब पुरुषके प्रारब्धका दोष है। देखो, वीर्य अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी तो वह योनिमें पहुँचकर गर्भधारण करानेमें समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कभी-कभी आमकी वौरके समान व्यर्थ ही झड़ जाता है। कितने ही लोग पुत्र-पौत्रकी इच्छा रखकर उसकी सिद्धिके लिये यत्न करते रहते हैं तो भी उनके संतान नहीं होती और बहुत-से मनव्य संतानको शोधमें भरे हुए साँप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। कितने ही गर्भ ऐसे हैं, जो पुत्राभिलाषी वीन स्त्री-पुरुषोंद्वारा देवताओंकी पूजा और तपस्या करके दस महीनेतक सुरक्षित रहनेके बाद भी पैदा होनेपर कुलाङ्गार निकल आते हैं तथा बहुत-से ऐसे हैं जो आमोद-प्रमोदमें ही जन्म धारण करके पित्तके संचित किये हुए अपार धन-धान्य और विपुल भोगोंके अधिकारी होते हैं। कुछ गर्भ माताके पेटसे गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं और कितने ही जन्म लेकर भी मर जाते हैं।

जैसे व्याध छोटे मृगोंको फण्ट पहुँचाते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्योंको नाना प्रकारके रोग पीड़ित करते हैं तो उन्हें उठने-बैठनेकी भी शक्ति नहीं रह जाती। व्याधके सताये हुए मनुष्य वृद्धोंको बहुत-सा धन देते हैं और वैद्यलोग रोग दूर करनेकी बहुत चेष्टा करते हैं तो भी वे उनकी पीड़ा नहीं खींच पाते। बहुत-सी ओषधियोंका संग्रह करनेवाले चतुर-चालाक वैद्य भी व्याधोंके मारे हुए मृगोंकी भाँति रोगोंके शिकार हो जाते हैं। वे तरह-तरहके काढ़े और घृत पीते रहते हैं तो भी जैसे हाथी किसी पेड़की झुका देता है,

बंसे ही बृद्धावस्था उनको कमर टेढ़ी कर देती है। इस पृथ्वीपर मृग, पक्षी, शिकारी जन्तु और खरिद मनुष्योंकी जब रोग सताता है तो कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं ? प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं। किंतु बड़े-बड़े पशु जैसे छोटे पशुओंपर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं, उसी प्रकार प्रचण्ड तेजवाले बुध्दयं राजाओंको भी बहुत-से रोग घेरें रहते हैं। इस प्रकार सब लोग मवसागरके प्रबल प्रवाहमें बहते हुए मोह-शोकमें डूब रहे हैं। देहधारी मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्याके प्रभावसे प्रकृतिका उल्लङ्घन नहीं कर सकते। यदि प्रयत्नका फल अपने हाथमें होता तो कोई भी मनुष्य न बूढ़ा होता, न मरता। सबकी सब कामनाएँ पूरी हो जातीं और किसीको अभिपन्न नहीं देलना पड़ता। सब लोग संसारमें सर्वोपरि होना चाहते हैं और इसके लिये यथाशक्ति यत्न भी करते हैं; किंतु उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती। प्रमाद-रहित, शूरवीर एवं पराक्रमी पुरुष भी ऐश्वर्य तथा मंदिराके मवसे उन्नत मनुष्योंकी सेवा करते हैं। कितने ही लोगिके क्लेश प्यान विदे बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा दूसरोंको अपना ही धन समयपर नहीं मिलता। कर्मिके फलमें बड़ी भारी विषमता देखनेमें आती है। कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकीमें बँठकर चलते हैं। कितने ही मनुष्य स्त्रीके मर जानेपर एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं और बहुतोंके पास अनेकों स्त्रियाँ रहती हैं। सभी प्राणी सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंमें रम रहे हैं, मनुष्य जतमेसे एक-एकका अनुभव करते हैं अर्थात् किसीको सुखका अनुभव होता है और किसीको दुःखका। तुम इस बातको देखो, किंतु मोहमें न पड़ो। श्रद्धिधेष्ठ ! यह मैंने तुमसे गूढ़ बात बतलायी है।

नारदजीकी बाल सुनकर परम बुद्धिमान और धीरचित्त शुकदेवजीने मन-ही-मन बहुत विचार किया; किंतु सहसा वे किसी निश्चयपर न पहुँच सके। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने धर्मकी कल्याणमयी गतिका निश्चय हो गया, फिर वे सोचने लगे—'मैं सब प्रकारकी उपाधियोंसे भूक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गतिको प्राप्त करूँ, जहाँसि फिर इस संसार-सागरमें लौटना न पड़े। जहाँ जानेपर जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मैं उसी परम भावको प्राप्त करना चाहता हूँ। सब प्रकारकी आसक्तियोंका परित्याग करके मैंने मनके द्वारा उत्तम गति

पानेका निश्चय किया है। अब मैं यहाँ जाऊँगा जहाँ मेरे आत्माको शान्ति मिलेगी तथा जहाँ मैं अक्षय, अविहारी और सनातनरूपसे स्थित रहूँगा; किंतु यह परमगति योगका सैन्य किये बिना नहीं प्राप्त हो सकती। कर्मके द्वारा देहवधनसे छुटकारा मिलना असम्भव है, इसलिये अब मैं योगका आश्रय लेकर इस देह-गोहणा परित्याग कर दूँगा और धारुणसे तेजोमय आदित्यमण्डलमें प्रवेश कर जाऊँगा। देवतालोग चन्द्रमाका अमृत पीकर जिस प्रकार उसे क्षीण कर देते हैं, उस प्रकार सूर्यदेवका क्षय नहीं होता। धूममार्गसे चन्द्रमण्डलमें गया हुआ शीव कर्मभोग समाप्त होनेपर कम्पायमान होकर फिर इस पृथ्वीपर गिर पड़ता है, इसी प्रकार नूतन कर्मफल भोगनेके लिये यह पुनः चन्द्रलोकमें जाता है। सारांश यह कि चन्द्रलोकमें जानेवालेको आयागमनसे छुटकारा नहीं मिलता। इसके सिवा चन्द्रमा सदा घटता-बढ़ता रहता है, उसकी ह्रास-वृद्धिका सिलसिला कभी नहीं टूटता। अतः इन सब बातोंका विचार करके मुझे चन्द्रलोकमें जानेकी इच्छा नहीं होती। परंतु सूर्यदेव अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समस्त जगत्को संताप देते हैं। वे सबके तेजको स्वयं ग्रहण करते हैं (उनके तेजका कभी ह्रास नहीं होता); इसलिये उनका मण्डल सदा अक्षय बना रहता है। अतः उद्दीप्त तेजवाले आदित्यमण्डलमें जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है, यहाँ मैं निर्माक होकर रहूँगा, कोई मेरा परामव नहीं कर सकेगा। इस शरीरको सूर्यलोकमें डालकर मैं श्रद्धियोगके साथ सूर्यदेवके अत्यन्त दुस्सह तेजमें प्रवेश कर जाऊँगा, इसके लिये मैं नग, नाग, पर्वत, पृथ्वी, विशा, आकाश, देव, दानव, गन्धर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसोंसे पृथक्कर उनको आत्मा लेना चाहता हूँ। आज मैं जगत्के सम्पूर्ण भूतोंमें प्रवेश करूँगा, समस्त देवता और श्रद्धि मेरी योगशक्तिका प्रभाव देखें।'

ऐसा निश्चय करके शुकदेवजीने विरयविख्यात देवर्षि नारदजीसे आत्मा माँगी। जब उनकी अनुमति मिल गयी तो वे अपने पिता महामुनि श्रीकृष्ण द्वैपायन के पास आये और उन्होंने उनके धरणीमें प्रणाम करके उनकी प्रवक्षिका की। तत्परचात् उनसे सूर्यलोकको जानेके लिये आत्मा माँगी और मोक्षका विचार करते हुए वे पिताको यहाँ छोड़ सिद्धगणोंसे सेवित कंसासके शिखरपर चले गये।

शुकदेवकी ऊर्ध्वगतिका वर्णन तथा व्यासकी महादेवजीका आश्वासन देना

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! व्यासपुत्र शुकदेवजी फँलास-शिलारपर पहुँचकर एकान्तमें समतल भूमिपर घँठ गये और शास्त्रोक्त विधिसे सम्पूर्ण शरीरमें आत्माकी धारणा करने लगे । थोड़ी ही देरमें जब सूर्योदय हुआ तो वे हाथ-पैर समेटकर चिन्तित-भावसे पूर्व विशाकी ओर मुँह करके बैठे और योगमें प्रयुक्त हो गये । वहाँ पक्षी नहीं थे और किसीका फोलाहल नहीं सुनायी पड़ता था । उस समय वे सब प्रकारके सङ्गोसे रहित आत्माका साक्षात्कार करके खूब हँसे; फिर मोक्षमार्गकी उपलब्धिसे लिये योगका आश्रय ले महान् योगेश्वर होकर उन्होंने आकाशमें उड़नेका विचार किया । तदनन्तर, देवधि नारदके पास जाकर उनकी प्रवक्षिणा की और उनसे अपने योगके सम्बन्धमें इस प्रकार निवेदन किया 'तपोधन ! अब मुझे मोक्षमार्गका दर्शन हो गया, आपका फल्याण हो, अब मैं वहाँ जानेको तैयार हूँ; आपकी कृपासे अभीष्ट गति प्राप्त करूँगा ।'

नारदजीकी आज्ञा पाकर व्यासनन्दन शुकदेवजी उन्हें प्रणाम करके पुनः योगमें स्थित हुए और फँलास-शिलारसे उछलकर आकाशमें जा पहुँचे । फिर धामुका रूप धारण कर अन्तरिक्षमें विचरने लगे । उस समय शुकदेवजीका तेज सूर्य और अग्निके समान उद्दीप्त हो रहा था । वे निश्चयात्मक बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण त्रिलोकीको आत्मभावसे देखते हुए बहुत दूर तक आगे बढ़ गये । उन्हें निर्भय होकर शान्त और एकाग्रचित्तसे ऊपर जाते देखे सम्पूर्ण घराचर प्राणियोंने अपनी शक्ति और रीतिके अनुसार उनका पूजन किया । देवताओंने उनपर विषय फूलोंकी वर्षा की । तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध परम धर्मात्मा शुकदेवजी पूर्वविशाकी ओर मुँह करके सूर्यको देखते हुए मौनभावसे आगे बढ़ रहे थे । थोड़ी ही देरमें वे मलय पर्वतपर जा पहुँचे, जहाँ उर्वशी और पुर्यंचित्ति— ये दो अप्सराएँ सदा निवास करती हैं । ब्रह्मर्षि व्यासजीके पुत्र शुकदेवजी इस प्रकार जाते देखे उन दोनों अप्सराओंको बड़ा आश्चर्य हुआ । वे आपसमें कहने लगीं—'अहो ! इस वेदाभ्यासी ब्राह्मणकी बुद्धिमें कितनी अद्भुत एकाग्रता है जो थोड़े ही समयमें पिताकी सेवासे उत्तम बुद्धि प्राप्तकर चन्द्रमाके समान आकाशमें विचर रहा है । यह बड़ा ही तपस्वी और पितृभक्त था । इसके पिता भी इसको बहुत प्यार करते थे, फिर भी उन्होंने इसे जानेकी आज्ञा कैसे दी ?' उर्वशीकी बात सुनकर शुकदेवजीने अन्तरिक्ष, पृथ्वी, पर्वत, वन, सरोवर तथा शरिताओंपर बुद्धि डाली । उस

समय इन सबकी अधिष्ठात्री देवियोंने हाथ जोड़कर बड़े आदरके साथ उनकी ओर देखा, तब शुकदेवजीने उन सबसे कहा—'देवियो ! यदि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकलें तो आप लोग सायधानीके साथ उत्तर देना । मुझपर आपलोगोंका स्नेह है, इसलिये मेरी इतनी-सी बात मान लेना ।' उनका कथन सुनकर समुद्र, नदी, पर्वत और वनसहित सम्पूर्ण विश्वोंकी अधिष्ठात्री देवियोंने सब ओरसे उत्तर दिया—'बहुत अच्छा, आप जो आज्ञा देते हैं, वंसा ही होगा ।'

यह कहकर महातपस्वी शुकदेवजी सिद्धि पानेके उद्देश्यसे आगे बढ़ गये । उन्होंने चार प्रकारके बोधोंका, आठ प्रकारके तमोगुणका तथा पाँच प्रकारके रजोगुणका परित्याग करके सत्त्वगुणको भी त्याग दिया । यह एक अद्भुत बात हुई । तत्पश्चात् वे नित्य, निर्गुण एवं लिङ्गरहित ब्रह्मपदमें स्थित हो गये । उस समय उनका तेज धूमहीन अग्निकी भाँति देवीप्य-मान हो रहा था । इन्द्रने सरस और सुगन्धित जलकी वर्षा की और विषय गन्ध फँलाती हुई परम पवित्र वायु चलने लगी । आगे बढ़नेपर श्रीशुकदेवजीने पर्वतके दो विषय शिखर देखे, जिनमें एक हिमालयका और दूसरा मेरुपर्वतका था । हिमालयका शिखर रजतमय होनेके कारण श्वेत खिलायी देता था और सुमेरुका स्वर्णमय शृङ्ग पीले रङ्गका था । इन दोनोंकी लंबाई-चौड़ाई सौ-सौ योजनकी थी । उत्तर विशाकी ओर जाते समय ये दोनों शिखर जब शुकदेवजीकी दृष्टिमें पड़े तो वे निर्भीक होकर उनके ऊपर चढ़ गये । यह महान् पर्वत उनकी गतिको रोक न सका, उसके दो टुकड़े हो गये और शुकदेवजी आगे बढ़ गये । यह देखे उस पर्वतपर रहनेवाले सम्पूर्ण देवताओं, गन्धर्वों और ऋषियोंने बड़े जोरसे हर्षनाव किया । उनकी हर्षध्वनि आकाशमें चारों ओर गूँज उठी तथा वहाँ सब ओर शुकदेवजीके प्रति साधुवादके शब्द सुनायी पड़ने लगे । उस समय देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और विद्याधरोंने उनका पूजन किया । उनके चढ़ाये हुए विषय पुष्पोंकी वर्षासे वहाँका सारा आकाश छा गया । तदनन्तर, ऊर्ध्वलोकमें जाते हुए शुकदेवजीने आकाशगङ्गाका दर्शन किया ।

इस प्रकार उन्हें सिद्धिके लिये उत्क्रमण करते जान उनके पिता वेदव्यासजी भी स्नेहवश उत्तम गतिका आश्रय ले उनके पीछे-पीछे आने लगे । फलक मारते-मारते वे उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँसे पर्वतकी गिराकर शुकदेवजी आगे

बड़े थे। वहाँ उन्होंने पर्वतके दो टुकड़े देले। उस समय वहाँ रहनेवाले ऋषियोंने आकर ध्यासजीसे उनके पुत्रका यह अलौकिक कर्म कह मुनाया। तब ध्यासजीने शुकदेवका नाम लेकर बड़े जोरसे प्रन्दन किया। उनकी आवाजसे तीनों लोक गूँज उठे। पिताकी पुकार सुनकर सबके आत्मरूप शुकदेवजीने सर्वव्यापक स्वरूपसे 'भोः' इस एकाक्षर शब्दका उच्चारण करके उत्तर दिया। उस समय समस्त घरावर जगत्ने उस ध्वनिका उच्चारण किया। तभीसे आजतक पर्वतोंके शिखरपर अथवा गुफाओंके पास जब-जब आवाज बी जाती है, तब-तब वहाँसे शुकदेवजीके शब्दमें ही प्रतिध्वनि निकलती है। इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर शुकदेवजी अन्तर्धान हो गये और शब्द आदि गुणोंका त्याग करके परम पदको प्राप्त हुए।

अपने अभित तेजस्वी पुत्रकी यह महिमा देखकर ध्यासजी उसीका चिन्तन करते हुए पर्वतके शिखरपर बैठ गये। इतनेमें देवता और गण्यवृत्तिसि धिरे हुए तथा महर्षियोंसे पूजित पिनाकधारी भगवान् शंकर वहाँ आ पहुँचे और पुत्रशोकसे संतप्त वेदव्यासजीको सान्त्वना देते हुए कहने लगे—'ब्रह्मर्षे ! तुमने पहले अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाशके समान

शक्तिशाली पुत्र होनेका मूकसे वरदान माँगा था, अतः तुम्हारी तपस्याके प्रभाव तथा मेरी कृपासे तुम्हें बँसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। यह ब्रह्मदेवतेजसे सम्पन्न और परम पवित्र था। इस समय उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की है, जो अजितेन्द्रिय पुरपों तथा देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। फिर भी तुम उसके लिये क्यों शोक कर रहे हो? जबतक इस संसारमें पर्वत और समुद्रोंको सत्ता रहेगी तबतक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्रकी अक्षय कीर्ति यहाँ बनी रहेगी तथा मेरी कृपासे इस जगत्में सबंदा तुम्हें अपने पुत्रकी छाया दिखायी देगी।'

भगवान् शंकरके इस प्रकार आश्वासन देनेपर मुनिवर व्यासजी सर्वत्र अपने पुत्रकी छाया देखते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमपर लौट आये। युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने शुकदेवजीके जन्म और परमपद-प्राप्तिकी कथा विस्तारसे सुनायी है। सबसे पहले देवर्षि नारदजीने मुझे यह वृत्तान्त सुनाया था। महायोगी ध्यासजी तो बातचीतके प्रसंगमें पद-पदपर इस कथाको बुहरामा करते हैं। जो पुरुष मोक्षधर्मसे युक्त इस परम पवित्र इतिहासको धारण करेगा, वह शान्तिपरायण होकर परमगति (मोक्ष) को प्राप्त होगा।

बदरिकाश्रममें भगवान् नारायणके द्वारा नारदजीकी शङ्काका समाधान

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! गृहस्थ, बह्यचारी, वानप्रस्थ अथवा संन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहता हो उसे किस देवताका पूजन करना चाहिये? देवयज्ञ अथवा पितृ-यज्ञकी क्या विधि है? मुक्त पुरुष किस गतिको प्राप्त होता है? भोक्षका क्या स्वरूप है? देवताओंका भी देवता और पितरोंका भी पिता कौन है? अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्त्व क्या है? इन सब बातोंको मुझे बताइये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है, इसका उत्तर समझनेमें कठिन है फिर भी तुम्हें तो बतलाना ही है। इस विषयमें जानकार लोग देवर्षि नारद और नारायण ऋषिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। मेरे पिताजीने मुझे बताया था कि भगवान् नारायण सम्पूर्ण जगत्के आत्मा, चतुर्भुक्ति और सनातन देवता हैं, वे ही धर्मके पुत्ररूपमें प्रकट हुए थे। स्वायम्भुव मन्वन्तरके सप्तयुगमें उनके चार स्वयम्भुव अवतार हुए थे, जिनके नाम हैं—नर, नारायण, हरि और कृष्ण। उनमेंसे अविनाशी नर और नारायण बदरिकाश्रममें जाकर घोर तपस्या करने लगे। तप करते-करते वे दोनों बहुत दुर्बल हो

गये, उनके शरीरकी नसें दिलायी देने लगीं। तपस्यासे उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवताओंको भी उनकी ओर देखना कठिन हो गया। जिसपर उनकी कृपा होती थी, वही उन्हें देख सकता था। एक समय शीघ्रगामी नारदजी घूमते-घूमते बदरिकाश्रममें जा पहुँचे। वहाँ जब नर और नारायणके नित्यकर्मका समय हुआ तो नारदजीके मनमें उन्हें देखनेके लिये बड़ा कोतूहल हुआ। वे सोचने लगे—'अहो ! यह उन्हीं भगवान्का स्थान है, जिनके भीतर देवता, असुर, गण्यवृत्त, किन्नर और नागसहित सम्पूर्ण लोक निवास करते हैं। पहले वे एक ही रूपमें विद्यमान थे, फिर धर्मके यशसे चार स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। इन्होंने अपने धर्माचरणसे धर्मको बढ़ाया और अनुग्रहीत किया है। पहले किसी कारणवशा हरि और कृष्ण यहाँ रहकर तपस्या करते थे, अब धर्माचरणमें बढ़े-चढ़े हुए वे नर और नारायण तपमें प्रयुक्त हुए हैं, वे ही दोनों परम धाम हैं, वे सम्पूर्ण प्राणियोंके पिता, देवता और परम यशस्थी हैं। भला ये दोनों यहाँ किस दूतसे देवता या पितरकी पूजा कर रहे हैं?'

इस प्रकार मन-ही-मन भक्तिपूर्वक सोच-

नारदजी सहसा उन दोनों देवताओंके पास उपस्थित हुए। भगवान् नर और नारायण जब देवता और पितरोंकी पूजा समाप्त कर चुके तो उन्होंने नारदजीको देखा और उनकी शास्त्रीयविधिसे पूजा की। उनका यह आश्चर्यजनक वर्ताव देखकर नारदजीने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार कहा—'भगवन् ! अङ्ग-उपाङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदों और पुराणों-



में आपको ही महिमाका गान किया जाता है। आप अजन्मा सनातन माता-पिता और सर्वोत्तम अमृतरूप हैं। आपहीमें भूत, भविष्य और वर्तमानकालीन सम्पूर्ण जगत् प्रतिष्ठित हैं। चारों आश्रमोंके लोग आपहीकी पूजा करते हैं, आप ही जगत्के माता, पिता और सनातन गुरु हैं, फिर भी आप जिस देवता या पितरकी पूजा करते हैं, वह कौन है—यह हमारी समझमें नहीं आता (अतः यह रहस्य बतानेकी कृपा करें)।'

श्रीभगवान् नारायणने कहा—'देवर्षे ! तुमने जिसके विषयमें प्रश्न किया है, वह अपने लिये गोपनीय विषय है। यद्यपि इस सनातन रहस्यको प्रकट करना उचित नहीं है तो भी तुम्हारी भक्ति देखकर तुमसे इस विषयका यथार्थ वर्णन

करूँगा। जो सूक्ष्म, अज्ञेय, अव्यक्त, अचल और ध्रुव है, जो इन्द्रियों, विषयों और सम्पूर्ण भूतोंसे परे है तथा विद्वानोंने जिसे सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्तरात्मा, क्षेत्रज्ञ, त्रिगुणातीत तथा अन्तर्यामी बतलाया है, उस परमात्मासे ही त्रिगुणमय अव्यक्तकी उत्पत्ति हुई है, जिसे प्रकृति कहते हैं। वह सत्-असत्स्वरूप परमात्मा ही हम दोनोंकी उत्पत्तिका कारण है। हम दोनों उसीकी पूजा करते और उसीको देवता तथा पितर मानते हैं। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पिता नहीं है। वही हमलोगोंका आत्मा है, इसीलिये हम उसकी पूजा करते हैं। अहम् ! उसीने लोकको उन्नतिके पथपर ले जानेवाली धर्ममर्यादा स्थापित की है। देवता और पितरोंकी पूजा करनी चाहिये, यह उसीकी आज्ञा है। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दश, भृगु, धर्म, यम, मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, कर्दम, क्रोध और विक्रीत—ये प्रजापति उसी परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं और उसीकी बनायी हुई सनातन मर्यादाका पालन करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण उसीके उद्देश्यसे किये जानेवाले देवता तथा पितृ-सम्बन्धी कर्मोंको ठीक-ठीक जानकर अपनी अभीष्ट-वस्तुओंको प्राप्त करते हैं। स्वर्गमें रहनेवाले प्राणियोंमेंसे जो कोई उस परमात्माको प्रणाम करते हैं, वे उसकी कृपासे उत्तम गति प्राप्त करते हैं।

जो पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण तथा मन और बुद्धिरूप सत्तरह गुणोंसे, सब कर्मोंसे तथा पंद्रह कलाओंसे अपनेको पृथक् समझते हैं, वे ही मुक्त हैं; यह शास्त्रका सिद्धान्त है। मुक्त पुरुषोंकी गति परमात्मा है, जिसे शास्त्रोंमें क्षेत्रज्ञ कहा है। वह परमात्मा सर्वगुणसम्पन्न तथा निर्गुण भी कहलाता है। ज्ञानयोगके द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। हम दोनोंका प्रादुर्भाव उसीसे हुआ है, ऐसा जानकर हम उस सनातन परमात्माकी पूजा करते हैं। चारों वेद, चारों आश्रम तथा नाना प्रकारके मतोंका आश्रय लेनेवाले लोग भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करते हैं और वह इन सबको उत्तम गति प्रदान करता है। जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य भावसे उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वे उसके स्वरूपमें प्रवेश कर जाते हैं। नारद ! तुम्हारी भक्ति और प्रेमके कारण हमने तुम्हारे सामने इस परम गोपनीय विषयका वर्णन किया है।

नारदजीका श्वेतद्वीपमें जाना तथा भीष्मका युधिष्ठिरसे उपरिचरके चरित्रवर्णनके प्रसंगमें तन्त्रशास्त्रकी उत्पत्ति बतलाना

भीष्मजी कहते हैं—पुरुषोत्तम नारायणने जब नारदजीसे इस प्रकार कहा तो वे उनसे बोले—'भगवन् ! अब आप अपने अवतार-धारणके उद्देश्यकी पूर्ति कीजिये, अब मैं (श्वेतद्वीपमें स्थित) आपके आदि विग्रहका दर्शन करने जाता हूँ। लोकाय ! मैंने वेदोंका स्वाध्याय और तप किया है, कभी असत्य भाषण नहीं किया है, मैं सदा गुरुजनोंका आदर करता हूँ, किसीकी गुप्त बात दूसरोंपर प्रकट नहीं करता, शत्रु और मित्रमें मेरा समानभाव है तथा आदिदेव परमात्माकी शरण लेकर सदा अनन्यभावेसे उनका भजन करता हूँ। इन सब कारणोंसे मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसी दशामें मैं उन अनन्त परमेश्वरके दर्शनसे कंसे वञ्चित रह सकता हूँ ?'

नारदजीकी बात सुनकर सनातन धर्मके रक्षक भगवान् नारायणने उनकी विधिवत् पूजा की और उन्हें जानकी आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर नारदजी भी उन पुरातन ऋषियोंकी पूजा करके योगयुक्त हो आकाशकी ओर उड़े और सहसा मेरुपर्वत-पर पहुँचकर अदृश्य हो गये। मेरुके शिखरपर एकान्त स्थानमें क्षणभर विधाम करनेके पश्चात् जब उन्होंने उत्तर-पश्चिमकी ओर दृष्टि डाली तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखायी दिया। क्षीरसागरके उत्तर भागमें जो श्वेतनामसे प्रसिद्ध विशाल द्वीप है, वह उनके सामने प्रकट हो गया। उस द्वीपमें सब प्रकारके पापीसे रहित श्वेतवर्णवाले पुद्गल निवास करते हैं। वे प्राकृतिक इन्द्रियोंसे शून्य होनेके कारण शब्द आदि विषयो-का उपभोग नहीं करते, उनके शरीरसे किसी प्रकारकी छेटा नहीं होती और सदा सुगन्ध निकलती रहती है। उनकी ओर देखनेसे पापी मनुष्योंकी आँखें चौंधिया जाती हैं, उनके शरीर तथा हार्दिका वस्त्रके समान बूढ़ होती हैं, वे भान और अपमानकी समान समझते हैं, उनका रूप दिग्घ्न होता है, वे स्वभावतः योगशक्तिते सम्पन्न होते हैं, उनके मस्तकका आकार छत्रके समान और स्वर मेघके समान गम्भीर होता है। उनके मुँहमें साठ सफेद दाँत और आठ दाँद होती हैं। जिनसे सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति हुई है और जिनहींने वेद, धर्म, शान्तिवृत्तियाँ रहनेवाले मूनि तथा सम्पूर्ण देवताओंकी सृष्टि की है, उन परमेश्वरकी श्वेत-द्वीपके निवासी भक्तिपूर्वक अपने हृदयमें धारण करते हैं।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! श्वेतद्वीपमें रहनेवाले पुद्गल इन्द्रिय, आहार तथा छेटासे रहित क्यों होते हैं ? उनके शरीरसे सुन्दर गन्ध क्यों निकलती है ? उनकी उत्पत्ति किस

प्रकार हुई है तथा वे किस उत्तम पतिको प्राप्त होते हैं ? इस लोकेसे मृगत होनेवाले पुद्गलोंका शास्त्रोंमें जो सत्यण बताया गया है, वैसा ही आपने श्वेतद्वीपके निवासियोंका भी बताया है, इन दोनोंमें यह समानता क्यों है ? इसे जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है।

भीष्मजीने कहा—राजन् ! यह कथा बहुत पितृत्त है, इसे मैंने अपने पिताजीके मुँहसे सुना था; किन्तु इस समय मैं तुम्हें इसका सारांशमात्र बतला रहा हूँ। पूर्वकालमें इस पृथ्वीपर एक उपरिचरनामक राजा राज्य करते थे, वे इन्द्रके मित्र और भगवान् नारायणके प्रसिद्ध भक्त थे। सदा धर्माचरण करते और अपने पितामें शक्ति रखते थे, आत्मसत्य तो उन्हें छू भी नहीं गया था। नारायणके वरसे ही उन्होंने इस भूमण्डलका साम्राज्य प्राप्त किया था। सूर्यके द्वारा उपदिष्ट वैष्णवशास्त्रोक्त विधिसे पहले वे भगवान् नारायणका पूजन करते, फिर उनकी पूजासे बची हुई सामग्रियोंके द्वारा पितरों और ब्राह्मणोंकी पूजा करते थे। अपने आश्रयसे रहनेवाले लोगोको अन्न बाँटकर सबसे छोड़े थे स्वयं भोजन करते थे, सदा सत्य बोलते और प्राणियोंकी हिंसासे दूर रहते थे। देवदेव जनार्दनने वे सम्पूर्ण चित्तसे शक्ति करते थे, इससे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र उन्हें अपने साथ एक शय्या और एक सिंहासनपर बिठाया करते थे। राजा उपरिचर अपने राज्य, धन, स्त्री और वाहन आदि सब उपकरणोंको भगवान्की इच्छासे प्राप्त समझकर सब उगहोंको समर्पण विदे रहते थे तथा सदा सावधान रहकर सकाम और नैमित्तिक यज्ञोक्त सम्पूर्ण क्रियाएँ वैष्णवशास्त्रोक्त विधिसे सम्पन्न किया करते थे। उन महात्मा राजाके यहाँ पाञ्चरात्र आगमके मुख्य विद्वान् सदा भोज्य रहते थे। भगवान्को अर्चन किया हुआ प्रसाद सबसे पहले उन्हें ही भोजन कराया जाता था। राजाके धर्मपूर्वक ही राज्यका शासन किया, सब अल्पकाल आश्रय नहीं लिया, उनके मनमें कभी दुरा विचार हीं उजा और अपने शरीरसे उन्होंने कभी डोटे-नेके-का-का-का-का-का-का किया था।

(अब मैं जिस प्रकार तन्त्रशास्त्रोक्त विधिसे देवता बताता हूँ, सुनो—) शरीर, शक्ति, अन्न, आहार, शब्द, स्पर्श, श्रुति और महातेजस्वी चित्रशिल्पशी होकर एक

सिद्धान्तके अनुकूल था। सात ऋषियोंके मुखसे निकले हुए उस शास्त्रमें उत्तम लोकधर्मकी व्याख्या की गयी है। उपर्युक्त ऋषि एकाग्रचित्त, जितेन्द्रिय, संयमपरायण, भूत, भविष्य और वर्तमानके ज्ञाता तथा सत्यधर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं। उन्होंने मन-ही-मन यह सोचकर कि अमुक साधनसे संसारका कल्याण होगा, ऐसा करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होगी तथा अमुक उपायसे जगत्का अत्यन्त हित होगा, उक्त शास्त्रकी रचना की। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका वर्णन है तथा नाना प्रकारकी मर्यादाओं और स्वर्ग एवं मर्त्यलोककी स्थितिका भी वर्णन किया गया है। उपर्युक्त ऋषियोंने एक हजार दिव्य वर्णतक तपस्या करके भगवान् नारायणकी आराधना की थी, उससे प्रसन्न होकर भगवान्ने सरस्वतीदेवीको उनके पास भेजा। नारायणकी आज्ञासे सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये सरस्वतीदेवीने उन ऋषियोंके भीतर प्रवेश किया, तब उन तपस्वी ब्राह्मणोंने यथार्थ रूपसे शब्द, अर्थ और हेतुयुक्त वाणीका प्रयोग किया। उनकी यह प्रथम रचना ही अकार तथा स्वरसे विभूषित तन्त्रशास्त्र है। ऋषियोंने सबसे पहले कर्णामय भगवान्को ही वह शास्त्र सुनाया, उसे सुनकर भगवान् बहुत प्रसन्न हुए और उनसे अदृश्य रहकर ही बोले—'मुनिवरो! तुमलोगोंने एक लाख श्लोकोंका यह उत्तम शास्त्र बनाया है, इससे सम्पूर्ण लोकधर्मका प्रचार होगा। प्रवृत्ति और निवृत्तिके विषयमें यह ऋक्, साम, यजु और अथर्ववेदके समान प्रमाण माना जायगा। ब्रह्मा, महादेवजी, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, नक्षत्र तथा अन्यान्य भूत नामधारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण जैसे अपने-अपने अधिकारके अनुसार वर्ताव करते

हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं, उसी प्रकार तुमलोगोंका बनाया हुआ यह उत्तम शास्त्र भी प्रामाणिक माना जायगा, यह मेरी आज्ञा है। स्वायम्भुव मनु इसीके अनुसार धर्मका उपदेश करेंगे। जब शुक्राचार्य और बृहस्पतिका जन्म होगा तो वे दोनों भी तुम्हारी वृद्धिसे प्रकट हुए इस शास्त्रका प्रवचन करेंगे। स्वायम्भुव मनु, शुक्राचार्य और बृहस्पतिके शास्त्रोंका जब लोकमें अच्छी तरह प्रचार हो जायगा तो प्रजापालक वसु (राजा उपरिचर) बृहस्पतिजोसे इस शास्त्रका अध्ययन करेगा। सत्यरूपोंद्वारा सम्मानित वह राजा मेरा बड़ा भक्त होगा और उसी शास्त्रके अनुसार सम्पूर्ण कार्योंका सम्पादन करेगा। तुम्हारा बनाया हुआ यह शास्त्र सब शास्त्रोंसे श्रेष्ठ माना जायगा, इसमें धर्म, अर्थ और उत्तम रहस्योंकी व्याख्या की गयी है। इसके प्रचारसे तुम्हारी प्रजाकी वृद्धि होगी तथा राजा उपरिचर भी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न एवं महापुरुष होगा; किंतु उसकी मृत्युके बाद यह शास्त्र संसारसे लुप्त हो जायगा। इस प्रकार इस शास्त्रके सम्बन्धमें सारी बातें मैंने तुमलोगोंको बता दीं।'

इतना कहकर भगवान् ऋषियोंको छोड़कर स्वयं किसी अज्ञात दियाको चले गये। तत्परचात् सब लोगोंका हित चाहनेवाले उन ऋषियोंने धर्मके भूलभूत उस सनातन शास्त्रका जगत्में प्रचार किया, फिर आदि कल्पके प्रारम्भिक युगमें जब बृहस्पतिका प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने साङ्गोपाङ्ग वेद और उपनिषदोंसहित वह शास्त्र उन्हें पढ़ाया। तदनन्तर धर्मका प्रचार और लोकोंको धर्म-मर्यादाके भीतर स्थापित करनेवाले वे ऋषिगण तपस्याका निश्चय करके अपने अभीष्ट स्थानको चले गये।

राजा उपरिचरके यज्ञमें एकत आदि मुनियोंका बृहस्पतिसे श्वेतद्वीप एवं भगवान्की महिमाका वर्णन

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! बृहत्, ब्रह्म और महत्—ये तीनों शब्द एक अर्थके वाचक हैं। बृहस्पतिजीमें इन तीनों शब्दोंके गुण मौजूद थे, इसीलिये वे बृहस्पति कहलाते थे। राजा उपरिचर उन्हींके शिष्य हुए और उन्होंने उनसे चित्रशिक्षणियोंके बनाये हुए तन्त्रशास्त्रका विधिवत् अध्ययन किया। इसके बाद वे पृथ्वीका पालन करने लगे। एक बार राजाने महान् अथर्ववेद-यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया। उसमें बृहस्पतिजी होता हुए और प्रजापतिके तीन पुत्र महर्षि एकत, द्वित तथा धनप, रश्मि अर्थात्

परावसु, मेधातिथि, ताण्ड्य, शान्ति, वेदशिरा, शालिहोत्रके पिता कपिल, आदि कठ, वंशम्पायनके बड़े भाई तैत्तिरि, कण्व और देवहोत्र—ये सोलह ऋषि सबस्य बने। उस महायज्ञमें सब प्रकारकी सामग्री एकत्र की गयी थी। राजा उपरिचर पवित्र, उदार तथा निष्कामभावसे कर्ममें प्रवृत्त हुए थे। जंगलमें उत्पन्न हुए पदार्थोंसे ही उस यज्ञमें देवताओंके भाग कल्पित किये गये थे। उस समय पुराणपुरुष भगवान् नारायणने प्रसन्न होकर राजाको प्रत्यक्ष दर्शन दिया;

अलक्षित रहकर अपने लिये अर्पित पुरोडासकी ग्रहण किया और उसे सूंघकर अपने अधीन कर लिया, इससे बृहस्पतिको बड़ा क्रोध हुआ। वे राजा उपरिचरसे बोले—'राजन् ! मैंने जो भाग समर्पण किया है, उसे देवताको मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ग्रहण करना चाहिये (इस तरह छिपकर उठा लेना अच्छा नहीं)।'

युधिष्ठिरने पूछा—'पितामह ! जब सभी देवताओंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने-अपने भाग ग्रहण किये तो भगवान् विष्णुने ऐसा क्यों नहीं किया ?

भीष्मजी कहते हैं—'बेटा ! जब बृहस्पतिजी क्रोधमें भर गये तो राजा उपरिचर और उनके सम्पूर्ण सदस्य उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। वे शान्तिभावसे बोले—'ब्रह्मन् ! आपको क्रोध नहीं करना चाहिये। धारणे जिनको यह भाग अर्पण किया है, वे भगवान् कभी क्रोध नहीं करते, उन्हें हमलोग या आप स्वेच्छासे नहीं देख सकते। जिसपर वे कृपा करते हैं, वही उनका दर्शन पा सकता है।' इसके बाद एकत, द्वित, त्रित तथा चित्रशिखण्डी नामवाले ऋषियों-ने कहा—'बृहस्पते ! हमलोग ब्रह्माजीके मानसपुत्र कहलाते हैं। एक बार अपने कल्याणकी इच्छासे हम सबने उत्तर दिशाको यात्रा की, वहाँ मेरुके उत्तर और क्षीरसागरके किनारे एक पवित्र स्थान है, जहाँ हमलोगोंने हजार वर्षोंतक काठकी भाँति एक परसे लड़े होकर एकाग्रचित्तसे कठोर तपस्या की थी। हमारे मनमें एकमात्र धर्मी संकल्प था कि 'हमें सनातन देवता भगवान् नारायणका दर्शन किसी तरह प्राप्त हो जाय।' जब हमारा व्रत समाप्त हुआ और हमलोग अवभृचस्नान कर चुके, उस समय बड़े गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी हुई—'विप्रवरौ ! तुमलोगोंने प्रसन्नचित्तसे भलीभाँति तप किया है, तुम भगवान्‌के भक्त हो और यह जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापक परमात्मका दर्शन कैसे हो ? इसका उपाय सुनो—'क्षीरसमुद्रके उत्तर भागमें अत्यन्त प्रकाशमान श्वेतद्वीप है। वहाँ भगवान् नारायणका भजन करनेवाले पुरुष रहते हैं, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान् होते हैं। वे स्पृल इन्द्रियोंसे रहित, निराहार और निर्वेद्य होते हैं, उनके शरीरसे मनोहर गन्ध निकलती रहती है तथा वे भगवान्‌के अनन्य भक्त होते हैं। तुमलोग उस श्वेतद्वीपमें ही चले जाओ, वहाँ भगवान् प्रत्यक्षरूपसे दर्शन देते हैं।'

“इस आकाशवाणीको सुनकर हमलोग उसके बताये हुए मार्गसे श्वेतनामक महाद्वीपमें पहुँचे। उस समय हमारा चित्त भगवान्‌में ही लगा था, हम उनके दर्शनको इच्छासे उत्कण्ठित हो रहे थे। श्वेतद्वीपमें प्रवेश करते ही हमारी आँखोंने जवाब दे दिया। वहकि निवासियोंके सामने हमारी

दृष्टि ठहर नहीं पाती थी, इसलिये हम वहाँ किसी पुरुषको नहीं देख सके। तदनन्तर, देवयोगसे हमारे हृदयमें यह बात स्फुरित हुई कि 'तपस्या किये बिना हमलोग यहाँ भगवान्‌को सुगमतापूर्वक नहीं देख सकते, यह विचार आते ही हमने फिर तो वर्षोंतक बड़ी भारी तपस्या की। उसके पूर्ण होनेपर हमें वहाँ रहनेवाले पुरुषोंके बरान हुए, जो चन्द्रमाके समान गौर और सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थे। वे प्रतिदिन ईशानकोणकी ओर भुँह करके हाथ जोड़े ब्रह्माका मानस जप करते थे। उनकी इस एकाग्रतासे भगवान्‌को बड़ी प्रसन्नता होती थी। प्रत्येककालमें सूर्यकी जैसी प्रभा होती है, वँसी ही उस द्वीपमें रहनेवाले प्रत्येक पुरुषकी थी। उस समय हमें तो ऐसा जान पड़ा कि यह द्वीप तेजका ही निवासस्थान है। वहाँ कोई किसीसे बढ़कर नहीं था, सबका तेज समान था। थोड़ी देरमें हमारे सामने एक ही साय हजारों सूर्योंके समान प्रभा प्रकट हुई, हमारी दृष्टि सहसा उस ओर खिच गयी। हमने देखा वहाँके सभी पुरुष प्रसन्नताके साथ हाथ जोड़े 'नमो नमः' कहते हुए शीघ्रतापूर्वक उस तेजकी ओर दौड़ रहे हैं। इसके बाद जब वे स्तुति करने लगे तो उनकी तुमुल ध्वनि हमारे कानोंमें पड़ी। सब लोग उस तेजस्वी पुरुषको पूजाकी सामग्री अर्पण कर रहे थे। उस तेजके सामने हमारी नेत्रशक्ति और इन्द्रियाँ काम नहीं दे पाती थीं, इसलिये हम स्पष्टरूपसे कुछ देख न सके। परन्तु स्तुतिकी जो ऊँची ध्वनि हो रही थी, वह हमें स्पष्ट सुनायी पड़ी। सब लोग कह रहे थे—'पुण्डरीकाक्ष ! आपकी जय हो। विश्वभावन ! आपको प्रणाम हो। महापुरुषोंके भी पूर्वज हूँपकेश ! आपको नमस्कार है।'

“इतनेहीमें पवित्र और सुगन्धित वायु बहुतसे दिव्य पुष्प और औषधियाँ से आयी, जिनसे वहाँके अनन्य भक्तोंने बड़ी भक्तिसे साथ उस तेजस्वी पुरुषकी पूजा की। उनकी बातचीतसे हमें विश्वास हो गया कि अवश्य ही यहाँ भगवान् प्रकट हुए हैं; किंतु हम उनके दर्शनमें सफल न हो सके। उस समय हमसे किसी शरीररहित देवताने कहा—'मुनियरौ ! तुमलोगोंने श्वेतद्वीपवासी इन्द्रियरहित पुरुषोंका बरान किया है, इनका दर्शन भगवान्‌के ही दर्शनके समान है। अब तुमलोग जहाँसे आये हो वहाँ लौट जाओ, वेर करनेकी आवश्यकता नहीं है। भगवान्‌में अनन्य भक्ति हुए बिना किसीको उनका साक्षात् दर्शन होना असम्भव है। हाँ, बहुत समयतक उनकी भक्ति करते-करते जब पूरी अनन्यता आ जायगी तो तुम इच्छानुसार उनका दर्शन कर सकते हो। इस समय तुम्हें अभी बहुत बड़ा काम करना है। इस सत्यमुक्त धीतनेपर जब वैयस्वत मन्वन्तरके त्रेतायुगका आरम्भ होगा,

उस समय देवताओंकी कार्य-सिद्धिके लिये तुम उनकी सहायता करोगे। यह अमृतके समान मधुर तथा अद्भुत वचन सुनकर हमलोग भगवान्की कृपासे अपने अभीष्ट स्थानपर आ पहुँचे। बृहस्पति! इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की, हव्य-कव्योंके द्वारा भगवान्का पूजन भी किया तो भी हमें उनका दर्शन न मिल सका; फिर तुम कैसे अपनेको उनके दर्शनका अधिकारी मानते हो? भगवान् नारायण सबसे महान्

देवता हैं, एकमात्र वे ही हव्य-कव्यके भोक्ता और संसारकी रचना करनेवाले हैं, उनका आदि और अन्त नहीं है, उन अव्यक्त परमेश्वरकी देवता और दानव भी पूजा करते हैं।”

इस प्रकार एकत, द्वित तथा त्रित आदि सदस्योंके समझानेपर उदारबुद्धिवाले बृहस्पतिजीने उस यज्ञको समाप्त करके भगवान्का पूजन किया। यज्ञ समाप्त होनेपर राजा उपरिचर भी पूर्ववत् अपनी प्रजाका पालन करने लगे।

नारदजीका अनेकों नामोंके द्वारा भगवान्की स्तुति करना

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! मैंने श्वेतद्वीपनिवासी पुरुषोंकी स्थितिका वर्णन किया, अब देवर्षि नारदजी जिस प्रकार श्वेतद्वीपमें गये उस प्रसंगको सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। उस महान् द्वीपमें पहुँचकर देवर्षि नारदजीने जब वहाँके चन्द्रमाके समान कान्तिमान् पुरुषोंको देखा तो मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन-ही-मन उनकी पूजा की। तत्पश्चात् श्वेतद्वीपवासी पुरुषोंने भी नारदजीका सत्कार किया। फिर वे भगवान्के दर्शनकी इच्छासे उनके नामका जप करने लगे और कठोर नियमोंका पालन करते हुए वहाँ रहने लगे। नारदजीने वहाँ अपनी दोनों बाँहें ऊपर उठाकर एकाग्रचित्त हो निर्गुण-सगुणरूप विश्वात्मा, भगवान् नारायण-को इस प्रकार स्तुति की—**देवदेवेश्वर!** आपकी नमस्कार है। आप निर्ऋत्य, निर्गुण और समस्त जगत्के साक्षी हैं। क्षेत्रज्ञ, पुरुषोत्तम (क्षर-अक्षर पुरुषसे उत्तम), अनन्त, पुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम (परमात्मा), त्रिगुण, प्रधान, अमृत, अमृताख्य, अनन्ताख्य, व्योम, सनातन, सदसद्व्यक्तव्याव्यक्त, ऋतधामा, आदित्य, वसुप्रद, प्रजापति, सुप्रजापति, वनस्पति, महाप्रजापति, ऊर्जस्पति, वाचस्पति, जगत्पति, मनस्पति, दिवस्पति, मरुत्पति, सलिलपति, पृथ्वीपति, दिक्पति, पूर्व-निवास (महाप्रलयके समय जगत्के आधाररूप), गुह्य, ब्रह्म-पुरोहित, ब्रह्मकायिक, महाराजिक, चातुर्भंगाराजिक, भासुर (प्रकाशमान), महाभासुर, सप्तमहाभाग, याम्य, महायाम्य, संज्ञासंज्ञ, तुषित, महातुषित, प्रमर्दन (मृत्युरूप), परिनिर्मित, अपरिनिर्मित, वशवर्ती, अपरिनिन्दित, अपरिमित (अनन्त), वशवर्ती, अवशवर्ती, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञसम्भव, यज्ञयोनि, यज्ञगर्भ, यज्ञहृदय, यज्ञस्तुति, यज्ञभागहर, पञ्चयज्ञ, पञ्चयज्ञ-कालकर्तृपति (अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन और संवत्सररूप कालके स्वामी) पञ्चरात्रिक, वैकुण्ठ, अपराजित, मानसिक, नामनामिक (स्पृण्ण नामोंके नामी), परस्वामी, (परमेश्वर), सुस्तात, हंस, परमहंस, महाहंस, परमयाज्ञिक, सांख्ययोग,

सांख्यमूर्ति, अमृतेशय, हिरण्येशय, देवेशय, कुशेशय, ब्रह्मेशय, पद्मेशय, विश्वेश्वर और विष्वक्सेन आदि आपहीके नाम हैं। आप ही जगदन्वय (जगत्में ओत-प्रोत) तथा जगत्की प्रकृति हैं। अग्नि आपका मुख है, आप ही वडवानल, आहुति, सारथि, वषट्कार, ॐकार, तप, मन, चन्द्रमा, नेत्र, आज्य (घृत), सूर्य, दिग्गज, दिग्भानु (दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले), विदिग्भानु (कोणोंको प्रकाशित करनेवाले) तथा ह्यग्रीव हैं। आप प्रथम त्रिसौपर्यमन्त्र, ब्राह्मणादि वर्णोंको धारण करनेवाले तथा पञ्चाग्निरूप हैं। नाचिकेत नामसे प्रसिद्ध त्रिविध अग्नि भी आप ही हैं। आप शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त और ज्योतिषनामक छः अङ्गोंके भाण्डार हैं। प्राग्ज्योतिष, ज्येष्ठसामग, सामिक-व्रतधारी, अथर्वशिरा, पञ्चमहाकल्प, फेनपाचार्य, बालखिल्य, वैखानस, अभग्नयोग (पूर्णयोग), अभग्नपरिसंख्यान (पूर्ण-विचार), युगादि, युगमध्य, युगान्त, आखण्डल (इन्द्र), प्राचीनगर्भ, कौशिक, पुरुष्टुत, पुरुहूत, विश्वकृत् (विश्वकर्मा), विश्वरूप, अनन्तगति, अनन्तभोग, अनन्त, अनादि, अमध्य, अव्यक्तमध्य, अव्यक्तनिधन, व्रतावाप्त, (व्रतके आध्य) समुद्रवासी, यशोवाप्त (यशके निवास), तपोवाप्त (तपके अधिष्ठान), दम्भावाप्त (संयमके आधार), लक्ष्मीनिवाप्त विद्यावाप्त, कीर्त्यावाप्त, श्रीवाप्त, सर्वावाप्त (सबके निवास स्थान), वासुदेव, सर्वच्छन्दक (सबकी इच्छा पूर्ण करनेवाले) हरिहय, हरिमेघ (यज्ञ), महायज्ञभागहर, वरप्रद, सुखप्रद धनप्रद, हरिमेघ (भगवद्भक्त), यम, नियम, महानियम कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र, महाकृच्छ्र, सर्वकृच्छ्र, नियमधर, निवृत्तधर (भ्रमरहित), प्रवचनगत (व्याख्यान-परायण), पृथिव्यागर्भ प्रवृत्त, प्रवृत्तवेदक्रिय (वेदिक कर्मोंके प्रवर्तक), अज, सर्वगति सर्वदर्शी, अग्राह्य, अचल, महाविभूति, महात्म्यशरीर, पवित्र महापवित्र, हिरण्यमय, बृहद्, अप्रतर्क्य, अविज्ञेय, ब्रह्माध्य प्रजाकी सृष्टि करनेवाले, प्रजाका अन्त करनेवाले, महाभारत

धारी, चित्रशिलण्डी, वरद, पुरोडास ग्रहण करनेवाले, गताध्वर (समाप्तयज्ञ), छिन्नतृण (तृणारहित), छिन्न-संसार्य, सर्वतोवृत्त (सर्वव्यापक), निवृत्तस्य, ब्राह्मणरूप, ब्राह्मणप्रिय, विश्वमूर्ति, महामूर्तिबाण्यद, भक्तवत्सल तथा

ब्रह्मण्यदेव आदि नामोंसे पुकारे जानेवाले परमेश्वर ! आपको नमस्कार है ! मैं आपका भक्त हूँ और आपके दर्शन-को इच्छासे यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एकान्तमें दर्शन देनेवाले आप परमात्माको बारंबार नमस्कार है।

श्वेतद्वीपमें नारदजीकी भगवान्का दर्शन होना और भगवान्का अपने भविष्य अवतारोंके कार्योंकी सूचना देना

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार गृह्य तथा सत्य नामोंसे जब नारदजीने भगवान्की स्तुति की तो उन्होंने



विश्वरूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। उनके शीविग्रहका कुछ भाग चन्द्रमासे भी अधिक निर्मल और कुछ भाग चन्द्रमासे विलक्षण था। कोई अद्भुत अग्निके समान देवीप्यमान और कोई नक्षत्रोंके समान जागृत्यमान था। शरीरका कोई स्थान तोतेकी पंखके रंगका, कोई स्फटिकमणिके समान, कोई कज्जलरानिके समान, कोई स्थान सोनेके रंगका, कोई मूंगेके समान और कोई श्वेतवर्णका था। कुछ भाग श्वेत चंद्रयुके समान, कुछ नील चंद्रयुके समान, कुछ इन्द्रनीलमणिके तुल्य, कुछ मोरके कण्ठके रंगका तथा कुछ मोतीकी मालाके समान था। इस प्रकार वे सनातन भगवान् अपने विग्रहमें नाना

प्रकारके रंग धारण किये हुए थे। उनके हजारों नेत्र, हजारों मस्तक, हजारों पैर, हजारों उदर और हजारों हाथ थे तथा कहीं-कहीं उनकी आकृति स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी। वे एक मूलसे अकारसहित गायत्रीका जप तथा अन्यान्य मूलोंसे चारों दिशाओं और आरण्यकोंका गान कर रहे थे। वे अपने हाथोंमें वेदी, कमण्डलु, उज्ज्वलमणि, कुश, मृगचर्म, वण्ड और घघकती हुई आग लिये हुए थे। उनके चरणोंमें चरमपातुकाएँ शोभा पा रही थीं। भगवान्का मूल प्रसन्न दिलायी वेता था। उनका दर्शन पाकर नारदजीका हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा और वे चुपचाप उनके चरणोंमें पड़ गये। तब देवताओंके आदिकारण उन अधिनारी परमात्माने नारदजीसे कहा—वेदों ! महर्षि एकल, द्वित और त्रित भी मेरे दर्शन-को इच्छासे यहाँ आये हुए थे, किन्तु उन्हें मेरा दर्शन न हो सका। वास्तवमें मेरे अनन्य भक्तोंके सिवा और कोई मुझे नहीं देख सकता। तुम तो मेरे अनन्य भक्तोंमें श्रेष्ठ हो, इसीलिये मेरा दर्शन कर सके हो। विप्रवर ! धर्मके घरमें जिन्होंने अवतार लिया है, वे नर-नारायण आदि मेरे ही स्वरूप हैं; तुम सदा उनका भजन किया करो। आज मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कोई वर माँगना चाहो तो माँग लो।

नारदजीने कहा—भगवान् ! जब आपका दर्शन हो गया तो मुझे तप, यम और नियम सबका फल मिल गया। आपका दर्शन ही मेरे लिये सबसे बड़ा चरदान है।

भगवान्ने कहा—नारदजी ! मुझे कोई नेत्रोंसे नहीं देख सकता। तुम जो मुझे देख रहे हो, यह मेरी रची हुई मायाका प्रभाव है। मैं सर्वत्र ध्यापक और सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्तरात्मा हूँ। प्राणियोंके शरीरोंका नाश हो जानेपर भी मैं नहीं नष्ट होता। मुनिवर ! जो लोग मेरे एकान्त भक्त हो चुके हैं, वे बड़े सोभाग्यशाली और सिद्ध हैं; क्योंकि रजोगुण और तमोगुणसे भक्त होकर वे मृत्युमें ही प्रवेश करेंगे। मुनिवर ! देतो, मेरे दाहिने भागमें ग्यारह छत्र और चार भागमें बारह आदित्य विराजमान हैं। मेरे अग्रभागमें आठ

उस समय देवताओंकी कार्य-सिद्धिके लिये तुम उनकी सहायता करोगे। यह अमृतके समान मधुर तथा अद्भुत वचन सुनकर हमलोग भगवान्की कृपासे अपने अमीष्ट स्थानपर आ पहुँचे। वृहस्पते ! इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की, हव्य-कव्योंके द्वारा भगवान्का पूजन भी किया तो भी हमें उनका दर्शन न मिल सका; फिर तुम कैसे अपनेको उनके दर्शनका अधिकारी मानते हो? भगवान् नारायण सबसे महान्

देवता हैं, एकमात्र वे ही हव्य-कव्यके भोक्ता और संसारकी रचना करनेवाले हैं, उनका आदि और अन्त नहीं है, उनका अव्यक्त परमेश्वरकी देवता और दानव भी पूजा करते हैं।

इस प्रकार एकत, द्वित तथा त्रित आदि सदस्योंके समझानेपर उदारबुद्धिवाले वृहस्पतिजीने उस यज्ञको समाप्त करके भगवान्का पूजन किया। यज्ञ समाप्त होनेपर राजा उपरिचर भी पूर्ववत् अपनी प्रजाका पालन करने लगे।

नारदजीका अनेकों नामोंके द्वारा भगवान्की स्तुति करना

भीष्मजी कहते हैं—गुधिष्ठिर ! मैंने श्वेतद्वीपनिवासी पुरुषोंकी स्थितिका वर्णन किया, अब देवाँष नारदजी जिस प्रकार श्वेतद्वीपमें गये उस प्रसंगको सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। उस महान् द्वीपमें पहुँचकर देवाँष नारदजीने जब वहाँके चन्द्रभाके समान कान्तिमान् पुरुषोंको देखा तो भस्त्रक मुकाकर प्रणाम किया और मन-ही-मन उनकी पूजा की। तत्पश्चात् श्वेतद्वीपवासी पुरुषोंने भी नारदजीका सत्कार किया। फिर वे भगवान्के दर्शनकी इच्छासे उनके नामका जप करने लगे और कठोर नियमोंका पालन करते हुए वहाँ रहने लगे। नारदजीने वहाँ अपनी दोनों बाँहें ऊपर उठाकर एकाग्रचित्त हो निर्गुण-सगुणरूप विश्वात्मा, भगवान् नारायणकी इस प्रकार स्तुति की—‘देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है। आप निष्क्रिय, निर्गुण और समस्त जगत्के साक्षी हैं। क्षेत्रज्ञ, पुरुषोत्तम (क्षर-अक्षर पुरुषसे उत्तम), अनन्त, पुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम (परमात्मा), त्रिगुण, प्रधान, अमृत, अमृतात्थ्य, अनन्तात्थ्य, व्योम, सनातन, सदसद्व्यवसायव्यक्त, ऋतधामा, आदिदेव, वसुप्रद, प्रजापति, सुप्रजापति, वनस्पति, महाप्रजापति, ऊर्जस्पति, वाचस्पति, जगत्पति, मनस्पति, दिवस्पति, मरुत्पति, सलिलपति, पृथ्वीपति, दिक्पति, पूर्वनिवास (महाप्रलयके समय जगत्के आधाररूप), गृह्य, ब्रह्मपुरोहित, ग्रहकायिक, महाराजिक, चातुर्महाराजिक, मासुर (प्रकाशमान), महाभासुर, सप्तमहाभाग, घाम्य, महाघाम्य, संसांसंज्ञ, तुषित, महातुषित, प्रमर्दन (मृत्युरूप), परिनिर्मित, अपरिनिर्मित, वशवर्ती, अपरिनिन्दित, अपरिमित (अनन्त), वशवर्ती, अवशवर्ती, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञसम्भव, यज्ञयोनि, यज्ञगर्भ, यज्ञहृदय, यज्ञस्तुति, यज्ञभागहर, पञ्चयज्ञ, पञ्चयज्ञकालकर्तृपति (अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन और संवत्सररूप कालके स्वामी) पञ्चरात्रिक, वैकुण्ठ, अपराजित, मानसिक, नामनामिक (सम्पूर्ण नामोंके नामी), परस्वामी, (परमेश्वर), सुस्नात, हंस, परमहंस, महाहंस, परसपाज्ञिक, सांख्ययोग,

सांख्यमूर्ति, अमृतेशय, हिरण्येशय, देवेशय, कुशेशय, ब्रह्मेशय, पद्मेशय, विश्वेश्वर और विष्ण्वक्त्रेण आदि आपहीके नाम हैं। आप ही जगदन्वय (जगत्में ओत-प्रोत) तथा जगत्की प्रकृति हैं। अग्नि आपका मुख है, आप ही बडवानल, आहुति, सारथि, वषट्कार, अकार, तप, मन, चन्द्रमा, नेत्र, आज्य (घृत), सूर्य, दिग्गज, दिग्भानु (दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले), विदिग्भानु (कोणोंको प्रकाशित करनेवाले) तथा ह्यप्रोव हैं। आप प्रथम त्रिसोपर्णमन्त्र, ब्राह्मणादि वर्णोंको धारण करनेवाले तथा पञ्चाग्निरूप हैं। नाचिकेत नामसे प्रसिद्ध त्रिविध अग्नि भी आप ही हैं। आप शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त और ज्योतिषनामक छः अङ्गोंके भाण्डार हैं। प्राग्ज्योतिष, ज्येष्ठसामग, सामिक-व्रतधारी, अथर्वशिरा, पञ्चमहाकल्प, फेनपाचार्य, बालखिल्य, वैखानस, अभग्नयोग (पूर्णयोग), अभग्नपरिसंख्यान (पूर्ण-विचार), युगादि, युगमध्य, युगान्त, आखण्डल (इन्द्र), प्राचीनगर्भ, कौशिक, पुरुष्टुत, पुरुहूत, विश्वकृत् (विश्वकर्मा), विश्वरूप, अनन्तगति, अनन्तभोग, अनन्त, अनादि, अमध्य, अव्यक्तमध्य, अव्यक्तनिधन, व्रतावास, (व्रतके आश्रय), समुद्रवर्ती, यशोवास (यशके निवास), तपोवास (तपके अधिष्ठान), दमावास (संयमके आधार), लक्ष्मीनिवास, विद्यावास, कीर्त्यावास, श्रीवास, सर्वावास (सबके निवास-स्थान), वासुदेव, सर्वच्छन्दक (सबकी इच्छा पूर्ण करनेवाले), हरिहय, हरिमेघ (यज्ञ), महायज्ञभागहर, वरप्रद, सुखप्रद, धनप्रद, हरिमेघ (भगवद्भक्त), यम, नियम, महानियम, कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र, महाकृच्छ्र, सर्वकृच्छ्र, नियमधर, निवृत्तधम (ध्रमरहित), प्रवचनगत (व्याख्यान-परायण), पृथिनगर्भ-प्रवृत्त, प्रवृत्तवेदिकाय (वेदिक कर्मोंके प्रवर्तक), अज, सर्वगति, सर्वदर्शी, अग्राह्य, अचल, महाविभूति, महात्म्यशरीर, पवित्र, महापवित्र, हिरण्यमय, बृहद्, अप्रतर्क्य, अविज्ञेय, ब्रह्माध्य, प्रजाकी सृष्टि करनेवाले, प्रजाका अन्त करनेवाले, महाभाया-

धारी, चित्तसिखण्डी, वरद, पुरोबास ग्रहण करनेवाले, गतालयर (समाप्तपत्र), छिन्ननृप (तृष्णारहित), छिन्नसंराय, सर्वतोवृत्त (सर्वव्यापक), निवृत्तरूप, ब्राह्मणरूप, ब्राह्मणप्रिय, विश्वमूर्ति, महामूर्तिबान्धव, भवतवत्सल तथा

ब्रह्मण्यदेव आदि नामोंसे पुकारे जानेवाले परमेश्वर ! आपकी नमस्कार है। मैं आपका भक्त हूँ और आपके दर्शनकी इच्छासे यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एकान्तमें दर्शन देनेवाले आप परमात्माको बारंबार नमस्कार है।

श्वेतद्वीपमें नारदजीको भगवान्का दर्शन होना और भगवान्का अपने भविष्य अवतारोंके कार्योंकी सूचना देना

भीष्मजी कहते हैं—मुर्धाच्छर । इस प्रकार गृह्य तथा सत्य नामोंसे जब नारदजीने भगवान्को स्तुति की तो उन्होंने



विश्वरूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। उनके भीविग्रहका कुछ भाग चन्द्रमासे भी अधिक निर्मल और कुछ भाग चन्द्रमासे विलक्षण था। कोई अद्भुत अग्निके समान देवीव्यमान और कोई नक्षत्रोंके समान जाज्वल्यमान था। शरीरका कोई स्थान तोतेको पालके रंगका, कोई स्फटिकमणिके समान, कोई कज्जलरासिके समान, कोई स्थान सोनेके रंगका, कोई मृगके समान और कोई श्वेतवर्णका था। कुछ भाग श्वेत वैदूर्यके समान, कुछ नील वैदूर्यके समान, कुछ इन्द्रनीलमणिके तुल्य, कुछ मोरके कण्ठके रंगका तथा कुछ मोतीकी मालाके समान था। इस प्रकार वे सनातन भगवान् अपने विग्रहमें नाना

प्रकारके रंग धारण किये हुए थे। उनके हजारों नेत्र, हजारों मस्तक, हजारों पैर, हजारों उबर और हजारों हाथ थे तथा कहीं-कहीं उनकी आकृति स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी। वे एक मुखसे अक्षरसहित गायत्रीका जप तथा अन्यान्य मुखोंसे चारों दिशाओं और आरष्यकोंका गान कर रहे थे। वे अपने हाथोंमें वेदी, कमण्डलु, उज्ज्वलमणि, कुश, मृगचर्म, वण्ड और घण्टकती हुई आग लिये हुए थे। उनके चरणोंमें चरल-पादुकाएँ शोभा पा रही थीं। भगवान्का मुख प्रसन्न दिखायी देता था। उनका दर्शन पाकर नारदजीका हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा और वे चुपचाप उनके चरणोंमें पड़ गये। तब देवताओंके आदिकारण उन अविनाशी परमात्माने नारदजीसे कहा—'विष्वे ! महर्षि एकत, द्वित और त्रित भी मेरे दर्शनकी इच्छासे यहाँ आये हुए थे, किन्तु उन्हें मेरा दर्शन न हो सका। वास्तवमें मेरे अनन्य भक्तके सिवा और कोई मुझे नहीं देख सकता। तुम तो मेरे अनन्य भक्तोंमें श्रेष्ठ हो, इसीलिये मेरा दर्शन कर सके हो। विप्रवर ! धर्मके धरमें जिन्होंने अवतार लिखा है, वे नर-नारायण आदि मेरे ही स्वरूप हैं; तुम सदा उनका भजन किया करो। आज मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कोई वर माँगना चाहो तो माँग लो।'

नारदजीने कहा—भगवन् ! जब आपका दर्शन हो गया तो मुझे तप, धम और नियम सबका फल मिल गया। आपका दर्शन ही मेरे लिये सबसे बड़ा धरदान है।

भगवान्ने कहा—नारदजी ! मुझे कोई नेत्रोंसे नहीं देख सकता। तुम-जो मुझे देख रहे हो, पह मेरी रची हुई मायाका प्रभाव है। मैं सर्वत्र व्यापक और सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्तरात्मा हूँ। प्राणियोंके शरीरोंका नाश हो जानेपर भी मैं नहीं नष्ट होता। मृनिवर ! जो लोग मेरे एकान्त भक्त हो चुके हैं, वे बड़े सीमाव्यशाली और सिद्ध हैं; क्योंकि रजोगुण और तमोगुणसे मुक्त होकर वे मुझमें ही प्रवेश करेंगे। मृनिवर ! देखो, मेरे बाहिने भागमें ग्याहृ द्र और वाम भागमें वाहृ आदित्य विराजमान हैं। मेरे अप्रमाणमें आठ

बन्धु और पृथ्वीमण्डलमें दोनों अद्वितीयकुमार स्थित हैं। यह देखो सम्पूर्ण प्रजापति, घात ऋषि, वैद, यज्ञ, अमृत, ओषधि तथा नादा प्रकारके धर्म-नियम भी मेरे शरीरमें सूतिमान् विद्यायी देते हैं। आठ प्रकारके ऐश्वर्य भी यहाँ साकाररूपसे प्रकट हैं। श्री, लक्ष्मी, कौंति, पृथ्वी तथा देवमाता सरस्वती-देवी भी मेरे भीतर विराजमान हैं, उनका दर्शन करो। देखो, ये नक्षत्रोंमें श्रेष्ठ ध्रुव विद्यायी दे रहे हैं। बावल, समृद्ध, मराठर और नदियोंको भी सूतिमान् देल लो। ये चार प्रकारके विद्वान् मराठर धारण करके प्रकट हुए हैं। इनके साथ ही मेरे अंदर रहनेवाले सत्त्वविद गुणोंका भी अवलोकन करो। मैं ही देवताओं और पितरोंका पिता हूँ तथा ह्यग्रोद-रूप धारण करके समुद्रके भीतर बाधय्य कोषमें रहता हूँ। सांख्यके आचार्य मुझे विद्याशक्तिसे सम्पन्न एवं सूर्यमण्डलमें स्थित बनित कहते हैं। वेदमें जिनकी स्तुति की गयी है, वह हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ तथा योगीशोण जिसमें रमण करते हैं, वह योगशास्त्रप्रसिद्ध कृष्ण भी मैं ही हूँ। इस समय मैं व्यक्तस्वरूप धारण करके आकाशमें स्थित हूँ; फिर हजार युग बीतेपर इस जगत्का संहार करूँगा और सम्पूर्ण ब्रह्मांड प्राणियोंको अपनेमें लीन करके मैं अकेला ही अपनी विद्याशक्तिके साथ विहार करूँगा। तदनन्तर, सृष्टिका समय आनेपर फिर उस विद्याशक्तिके ही द्वारा संसारको सृष्टि करूँगा तथा कुछ काल परवान् वेता और हावरके संघर्षोंके समय मैं दशरथ-नन्दन 'राम' के रूपमें अवतार लूँगा। उस समय समस्त संसारके लिये कष्टकरुण पुनस्तम्भरुणघालक राक्षसराज रावणका उसके अनुयायियों सहित नाश करूँगा। फिर हावर और कालकी सीधमें कंसको मारनेके लिये नयुगमें अवतार धारण करूँगा और देवताओंके लिये क्रांटा बनेवाले बहुजन्मे दानवोंका वध करके द्वारकापुरीमें निवास करूँगा। वहाँ रहते समय देवमाता अदितिका अश्रिय करनेवाले भूमिपुत्र नरकानुर, मुर तथा पीठनामक दानवका संहार करूँगा और उनके प्राण्योतिषपुरानामक नगरका धन-धान्य द्वारकामें उठवा ले जाऊँगा। तदनन्तर, ब्राह्मणुरका त्रिय तथा हित धारुनेवाले विश्ववन्दित देवता महादेव और कार्तिकेयको

युद्धमें परास्त करूँगा और हजार बाँहोंवाले बलिपुत्र बाणामुर-को जीतकर सौम विमानमें रहनेवाले शास्त्रादि बीरोंको मौतके घाट उतारूँगा। इतना ही नहीं, महर्षि गरुके तेजसे शक्तिशाली बने हुए कालववनका भी मेरे ही द्वारा नाश होगा। उस समय गिरिद्वज (राजगृही) में जरासन्धनामक एक बहुत बलवान् अनुर राजा होगा, जो दूसरे राजाओंसे बँर नाल लेता किरोगा। उसका भी मेरी ही बुद्धिके प्रयत्नसे नाश होगा। इसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिरके यज्ञमें भेट लेकर आये हुए समस्त बलवान् राजा-महाराजाओंके बीच शिशुपालका मत्तक काटूँगा। महाभारतमें सबको परास्त करके भाइयोंसहित युधिष्ठिरको उनके राज्यपर विठाऊँगा। उस समय संसारके लोग यही कहेंगे कि 'श्रीकृष्ण और अर्जुनके रूपमें ये नर और नारायण ऋषि जगत्का कल्याण करनेके लिये अत्रियकुलका संहार कर रहे हैं।' इस प्रकार पृथ्वीका नार उतारकर मैं द्वारकाके समस्त यादवोंका भी भयंकर संहार करूँगा। नारदजी! तुम्हारी भक्तिके कारण यह भूत और भविष्यका सारा रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! विश्वरूपधारी अविनाशी भगवान् नारायण इतनी बात कहकर अन्तर्धान हो गये। तब महातेजस्वी नारदजी भी भगवान्का मनो-वाञ्छित अनुग्रह पाकर नर-नारायणका दर्शन करनेके लिये दरिकाश्रमकी ओर चल दिये। यह उपास्थान नारदजीका ही कहा हुआ है, किन्तु मुझे परम्परामें प्राप्त हुआ है। मुझसे मेरे पिताजीने जो कहा था, वही मैंने तुम्हें सुनाया है।

सीति कहते हैं—शौनक ! वैशम्पायनजीके मुखसे सुना हुआ यह सारा-का-सारा उपास्थान मैंने तुम्हें सुना दिया। राजा जनमेजयने इसे सुनकर विधिपूर्वक भगवान्का यजन किया। तुमलोग भी तपस्वी और व्रतका पालन करनेवाले हो, नैमिषारण्यमें निवास करनेवाले प्रायः सभी ऋषि वेदवेत्ताओंमें प्रधान हैं। सौभाग्यवश तुम सभी इस महायज्ञमें एकत्रित हुए हो, अतः विधिवत् हवन करके उन सनातन परमेश्वरका यजन करो।

श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने नामोंकी व्याख्या सुनाना

जनमेजयने कहा—रहन् ! मैं प्रजापतियोंके पति भगवान् श्रीहरिके नाम श्रवण करना चाहता हूँ। आप उनका वर्णन कौलिये, सिद्धे सुनकर मैं पवित्र हो जाऊँ।

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! भगवान् श्रीहरिने

अर्जुनपर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्मके अनुसार स्वयं अपने नामोंकी कौंसो व्याख्या की है, वही तुम्हें सुना रहा है; सुनो—एक समय अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णसे पूछा 'भगवन् ! आप भूत और भविष्यके स्वामी, सम्पूर्ण धर्मोंकी मूर्ति

करनेवाले, अविनाशी, जगत्के आश्रय, ईश्वर और अमय देनेवाले हैं। देवदेव! वेद और पुराणोंमें महर्षियोंने आपके कर्मनुसार जो-जो गूढ़ नाम बतलाये हैं, उनकी आप-होके मूँहसे घ्याख्या सुनना चाहता हूँ, कृपया सुनाइये।

भगवान् बोले—अर्जुन! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद्, पुराण, ज्योतिष, सांख्य, योगशास्त्र तथा आयुर्वेदमें महर्षियोंने मेरे बहुत-से नाम बतलाये हैं, उनमेंसे कुछ नाम तो मुण्डिके अनुसार हैं और कुछ कर्मोंके अनुसार। अब मैं उन नामोंकी व्याख्या करता हूँ, सावधान होकर सुनो—जिनके प्रसादसे ब्रह्मा और ऋषिसे ऋषि प्रकट हुए हैं, उन निर्गुण-सगुणरूप विरवात्मा भगवान् नारायणको नमस्कार है। ये ही सम्पूर्ण चराचर जगत्की उत्पत्तिके कारण हैं। उनसे ही सृष्टि, प्रलय आदि सम्पूर्ण विकारोंकी उत्पत्ति होती है। ये ही तप, यज्ञ और यजमान हैं। पुराण-पुरुष और विराट्-पुरुष भी उन्हींके नाम हैं। जब प्रलयकी रात बीती थी, उस समय उन अमित तेजस्वी नारायणकी कृपासे एक कमल प्रकट हुआ तथा उन्हींकी कृपासे उस कमलमेंसे ब्रह्माजीका प्रावृत्ति हुआ। ब्रह्माका दिन बीतने-पर ऋषिके आवेशमें आये हुए भगवान्के सहायते संहारकारी ऋषि उत्पन्न हुए। इस प्रकार वे दोनों देवता—ब्रह्मा और ऋषि भगवान्के प्रसाद और ऋषिसे प्रकट हुए हैं तथा उन्हींके बताये हुए मार्गसे सृष्टि और संहारका कार्य पूर्ण करते हैं। समस्त प्राणियोंकी चर देनेवाले ये दोनों देव सृष्टि और प्रलयके निमित्तमात्र हैं। वास्तवमें तो वह सब कुछ नारायणकी इच्छासे ही होता है। इनमेंसे संहारकारी ऋषिके कर्षण (जटाजूटधारी), जटिल, मुण्ड, श्मशानगृहका सेवन करने-वाले, कठोर व्रतका पालन करनेवाले, ऋषि, योगी, परम वादण, दश-यज्ञ-विध्वंस करनेवाले तथा भगवदेवताकी आँख ऋषिनेवाले आदि कई नाम हैं। पाण्डुनन्दन! ये भगवान् ऋषि भी नारायणके ही स्वरूप हैं। इन देवदेव महेश्वरकी पूजा करनेसे भगवान् नारायणकी भी पूजा हो जाती है। मैं सम्पूर्ण जगत्का आत्मा हूँ, इसलिये मैं पहले अपने आत्माके रूप ऋषिकी ही पूजा करता हूँ। यदि मैं धरवाता भगवान् शिवकी पूजा न कहूँ तो दूसरा कोई भी उन आत्मरूप शंकरका पूजन नहीं करेगा; क्योंकि मेरे कार्यको ही आदर्श मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। जो ऋषिके जानता है, वह मुझे जानता है। जो उनका भजन करता है, वह मेरा भी भजन करता है। जो और नारायणको एक ही सत्ता है, जो वो स्वरूप धारण करके संसारमें विचर रही है। मुझे ऋषिके सिया दूसरा कोई घर देनेमें समर्थ नहीं है, यह सोचकर ही

आराधना की थी। ब्रह्मा, ऋषि, इन्द्र आदि देवता और ऋषि भी भगवान् नारायणकी पूजा करते हैं। भूत, भक्षिय और वर्तमान तीनों कालोंमें जो प्राणी रहते हैं, उन सबके नेता और सेव्य भगवान् विष्णु ही हैं, ये सदा सबकी पूजाके योग्य हैं। अर्जुन! तुम हृष्य-कथ्यकी स्वीकार करने तथा सबको शरण देनेवाले उन भगवान्को सदा नमस्कार किया करो। चार प्रकारके मनुष्य मेरे भक्त होते हैं; यह बात तुम सुन चुके हो। उनमेंसे जो मेरे अनन्य भक्त हैं—मेरे सिवा किसी दूसरे देवताका भजन नहीं करते, वे ही श्रेष्ठ हैं; मैं ही उनको परम-गति हूँ। ये कर्म करते हुए भी फलकी इच्छा नहीं रखते। शेष तीन प्रकारके जो भक्त हैं, उन्हें मैं फलकी कामनावाला ही मानता हूँ और फलकी कामनावालोंको नीचे गिरना पड़ता है। किंतु जो कामनाका त्याग करनेवाले भक्त भक्त हैं उन्हें सर्वोत्तम फलकी प्राप्ति होती है। भानी पुरुष ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओंकी सेव्य करते हुए भी अन्तमें मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन! यह मैंने तुमसे भक्तोंका अन्तर बतलाया है। तुम और मैं—दोनों नर-नारायण ऋषि हैं और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये हमने मनुष्य-शरीरमें प्रवेश किया है। मैं अध्यात्मयोगकी जानता हूँ तथा 'मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ' इस बातका भी मुझे ज्ञान है। लौकिक अम्पदका साधक प्रयत्तिधर्म और ति-श्रेयस प्रदान करनेवाला निवृत्ति-धर्म मुझसे अज्ञात नहीं है। एकमात्र मैं ही सम्पूर्ण मनुष्योंका आश्रयभूत सनातन परमात्मा हूँ।

नर (पुरुष) से उत्पन्न होनेके कारण जलको नार कहते हैं, वह नार (जल) पहले मेरा अपन (निवासस्थान) था, इसलिये मैं 'नारायण' कहलाता हूँ। (जो आच्छादित करे अथवा जो किसीका निवासस्थान हो, उसको वासु कहते हैं।) मैं ही सूर्यरश्मि धारण करके अपनी किरणोंसे सम्पूर्ण जगत्को आच्छादित करता हूँ तथा मुझमें ही समस्त प्राणी निवास करते हैं, इसलिये मेरा नाम 'वासुदेव' है। मैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति और उत्पत्तिका स्थान हूँ, मैंने आकाश और पृथ्वीको स्यात् कर रखा है, मेरी कान्ति सबसे बढ़कर है, समस्त प्राणी अन्तमें मुझे ही पानेकी इच्छा करते हैं तथा मैं सबको आक्रान्त करता हूँ; इन्हीं सब कारणोंसे लोग मुझे 'विष्णु' कहते हैं। मनुष्य दम (इन्द्रियसंयम) के द्वारा सिद्धि पानेकी इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं, इसलिये मैं 'दामोदर' कहलाता हूँ। अन्न, घेद, जल और अमृतको पुत्रि कहते हैं, ये सदा मेरे गर्भमें रहते हैं, अतः मेरा नाम 'पुत्रिणगर्भ' है। जगत्को तपानेवाले सूर्य और अग्निकी तथा चन्द्रमाकी जो किरणें प्रकाशित होती हैं, वे मेरा केश कहलाती हैं; उस केशसे भक्त होनेके कारण सर्वतः विद्वान् मुझे 'किशोर' कहते

हैं। सूर्य और चन्द्रमा मेरे नेत्र हैं और इनकी किरणें केश कहलाती हैं। ये दोनों जगत्को शान्ति और ताप देकर हृषित करते हैं; इसलिये 'हृषी' कहे गये हैं तथा वे ही मेरे केश हैं; इस कारण मैं 'हृषीकेश' कहलाता हूँ। यज्ञमें 'इलोप-हृता सह दिवा' आदि मन्त्रसे आवाहन करनेपर मैं अपना भाग हरण (स्वीकार) करता हूँ तथा मेरे शरीरका रंग भी हरित (श्याम) है, इसलिये मुझे 'हरि' कहते हैं। प्राणियोंके सार या बलका नाम है धाम और ऋतका अर्थ है सत्य। मेरा धाम ऋत है—ऐसा विचार कर ब्राह्मणोंने मुझे 'ऋतधामा' कहा है। (गोविन्दका अर्थ है पृथ्वीको प्राप्त करनेवाला) पूर्वकालमें जब पृथ्वी पानीमें डूबकर रसातलमें चली गयी थी, तो मैंने (वाराह अवतार धारण करके) इसे प्राप्त किया था; इसलिये देवताओंने 'गोविन्द' कहकर मेरा स्तवन किया है। मेरे शिपिविण्ट नामकी व्याख्या इस प्रकार है—रोमहीन प्राणीको शिपि कहते हैं—यह निराकारका उपलक्षण है तथा विण्टका अर्थ है व्यापक। मैंने निराकाररूपसे समस्त जगत्को व्याप्त कर रक्खा है, इसलिये मुझे 'शिपिविण्ट' कहते हैं। मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें रहनेवाला साक्षी—आत्मा हूँ। मैंने न तो पहले कभी जन्म लिया है, न अब जन्म लेता हूँ और न आगे कभी जन्म लूंगा; इसीलिये मेरा नाम 'अज' है। मैंने कभी असत्—ओछी या अश्लील बात मुंहसे नहीं निकाली है; सत्यस्वरूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वती मेरी वाणी है तथा सत् और असत् (सत् और त्यत्) मेरे ही मीतर स्थित हैं; इस कारण मेरे नाभिकमलरूप ब्रह्मलोकमें रहनेवाले ऋषिगण मुझे 'सत्य' कहते हैं। मैं पहले कभी सत्त्वसे च्युत नहीं हुआ हूँ, सत्त्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, सत्त्वके कारण मैं पापसे रहित हूँ तथा सात्त्वतज्ञान (पाञ्चरात्रादि वैष्णव तन्त्र) से मेरे स्वरूपका बोध होता है; इन सब कारणोंसे मुझे 'सात्त्वत' कहते हैं। अर्जुन! धर्म ही सबसे उत्कृष्ट है, वही शान्तिमय परब्रह्म है, उस धर्म या ब्रह्मसे मैं कभी च्युत नहीं होता; इसलिये 'अच्युत' कहलाता हूँ। (अधःका अर्थ है पृथ्वी, अधका अर्थ है आकाश और 'ज' का अर्थ है इनको जीतने या धारण करनेवाला) पृथ्वी और आकाश—दोनोंको धारण करनेके कारण मुझे 'अधोक्षज' कहते हैं। महर्षिलोग अधोक्षज शब्दको अलग-अलग तीन पदोंका समूह मानते हैं—'अ' का अर्थ लयस्थान, 'धोक्ष' का अर्थ पालन-स्थान और 'ज' का अर्थ उत्पत्तिस्थान है। उत्पत्ति, स्थिति और लयके स्थान एकमात्र नारायण ही हैं; अतः उनके सिवा दूसरा कोई 'अधोक्षज' नहीं कहला सकता। प्राणियोंके प्राणोंकी पुष्टि करनेवाला

धृत मेरे स्वरूपभूत अग्निदेवकी अर्चिष् अर्थात् ज्वालाको जगानेवाला है; इसलिये वेदज्ञोंने मुझे 'धृतार्चि' कहा है। जीव वात, पित्त और कफ—इन तीन धातुओंसे जीवन धारण करते हैं और इन्हीं तीनोंके क्षीण होनेपर नष्ट हो जाते हैं; इसलिये आयुर्वेदके विद्वान् मुझे 'त्रिधातु' कहते हैं। मेरे स्वरूपभूत भगवान् धर्म संसारमें वृष नामसे विख्यात हैं तथा वैदिक शब्दकोषमें जहाँ पदोंकी व्याख्या की गयी है वहाँ भी धर्मरूपसे मुझे ही वृष कहा गया है; इसी प्रकार कपिशब्दका अर्थ श्रेष्ठ है, इसलिये प्रजापति कश्यपने मुझे 'वृषाकपि' बतलाया है। मैं जगत्का साक्षी और सर्वव्यापक ईश्वर हूँ, देवता तथा असुर भी मेरे आदि, मध्य और अन्तका कभी पता नहीं पाते, इसलिये मैं 'अनादि', 'अमध्य' और 'अनन्त' कहलाता हूँ। धनञ्जय! जो शुचि—पवित्र एवं श्रवण करने योग्य हैं, उन्हीं वचनोंको मैं श्रवण करता हूँ; इसीलिये मेरा नाम 'शुचिश्रवा' है। पूर्वकालमें मैंने एक सौगवाले वाराहका रूप धारण करके इस पृथ्वीको पानीसे निकाला था, अतः मेरा नाम 'एकशृङ्ग' हुआ। वाराह अवतारके ही समय मेरे शरीरमें तीन ककुद् (ऊँचे स्थान) थे, इसलिये मैं 'त्रिककुद्' नामसे विख्यात हुआ। सांख्य-शास्त्रका विचार करनेवाले विद्वानोंने जिसे विरश्चि कहा है, वह प्रजापति 'विरश्चि' में ही हूँ। तत्त्वका निश्चय करनेवाले सांख्यशास्त्रके आचार्योंने मुझे आदित्यमण्डलमें स्थित, विद्या-शक्तितसे सम्पन्न, सनातन देवता कपिल कहा है। वेदोंमें जिनकी स्तुति की गयी है तथा योगीजन सदा जिनकी पूजा करते हैं, वह तेजस्वी 'हिरण्यगर्भ' में ही हूँ। वेदके विद्वान् मुझे ही इक्कीस हजार ऋचाओंसे युक्त 'ऋग्वेद' और एक हजार शाखाओंवाला 'सामवेद' कहते हैं। आरण्यकोंमें ब्राह्मणलोग मेरा ही गान करते हैं। वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं। जिसमें एक सौ एक शाखाएँ मौजूद हैं, उस यजुर्वेदमें भी मेरा ही गान किया गया है। अथर्ववेदके विद्वान् मुझे ही आभिचारिक प्रयोगोंसे युक्त पञ्चकल्पात्मक 'अथर्ववेद' मानते हैं। वेदोंमें जो भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं, उन शाखाओंमें जितने गीत हैं तथा उन गीतोंमें स्वर और वर्णके उच्चारण करनेकी जितनी रीतियाँ हैं, उन सबको मेरी ही बनायी हुई समझो। मैं ही वरदाता ह्यग्रीव हूँ। प्राचीनकालमें मैं धर्मके पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुआ था, इसलिये 'धर्मज' कहलाता हूँ। जिन्होंने गन्धमादन पर्वतपर अखण्ड तपका अनुष्ठान किया है, वे नर और नारायण मेरे ही स्वरूप हैं।

देवर्षि नारद और नर-नारायणकी वातचीत तथा सौतिके द्वारा भगवान्की महिमाका वर्णन

जनमेजयने कहा—ब्रह्मन्! जैसे इहोसे भवखन, मलयसे चन्दन, वेदोसे आरष्यक तथा ओषधिपौसे अमृत निकाला गया है, उसी प्रकार आपने यह नारायणकी कथारूप अमृतको प्रकट किया है। वे भगवान् नारायण सब प्राणिपोंको उत्पन्न करनेवाले और सबके ईश्वर हैं। अहो! नारायणका तेज अद्भुत है, उसका साक्षात्कार होना कठिन है। कल्पके अन्तमें जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, गन्धर्व और समस्त चराचर प्राणी लीन होते हैं, उन नारायण देवसे उल्लूक्य और पावन दूसरा कोई नहीं है। नारायणकी कथा सुननेसे जो फल मिलता है, वह सम्पूर्ण आधर्मोंमें जाने और सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेसे भी नहीं मिलता। सम्पूर्ण विश्वके स्वामी श्री हरिको कथा सब पापोंका नाश करनेवाली है, उसे आरम्भसे ही सुनकर मैं सर्वथा पवित्र हो गया हूँ। मेरे पूज्य पितामह अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे जो महाभारतमें विजय प्राप्त की, यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि बिलोकितानाथ विष्णुकी सहायता मिलनेपर तो मैं संसारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं समझता। मेरे सभी पूर्वज धन्य थे, जिनका हित और कल्याण करनेके लिये साक्षात् जनादंन तैयार रहते थे। सारा संसार जिनकी पूजा करता है, उन भगवान् नारायणका दर्शन तपस्यासे ही हो सकता है; किन्तु मेरे पितामहोंने श्रीवत्सके चिह्नसे विमूषित उन भगवान्का साक्षात् दर्शन अनायास ही पा लिया था। उनसे भी बढ़कर धन्यवादके पात्र देवर्षि नारदजी हैं, मैं उनको साधारण तेजस्वी नहीं मानता; क्योंकि उन्होंने श्वेतद्वीपमें जाकर साक्षात् भगवान्का दर्शन किया। भगवान्की कृपासे उन्हें उनके श्रीविग्रहका प्रत्यक्ष दर्शन मिला। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्वेतद्वीपसे लौटकर नारदजी नर-नारायणका दर्शन करनेके लिये जो पुनः बदरिकाधम गये उसका क्या कारण था, वहाँ जाकर वे कितने समयतक उन दोनों ऋषियोंकी सेवामें रहे, उन्होंने उनसे कौन-कौन-से प्रश्न किये तथा उन प्रश्नोंके उत्तरमें महात्मा नर-नारायणने क्या कहा था? ये सब बातें बतानेकी कृपा कीजिये।

वंशम्पादनजीने कहा—राजन्! मैं पहले अमित तेजस्वी भगवान् व्यासको नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपासे मुझे यह नारायणकी कथा कहनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ है। श्वेतद्वीपमें श्रीहरिका दर्शन करके जब नारदजी लौटे तो बड़े वेगसे मेरे पर्वतपर आ पहुँचे। भगवान्ने जो आत्मा दी थी उसे उन्होंने हृदयसे स्वीकार किया था। मेरसे चलकर वे

गन्धमादन पर्वतके पास पहुँचे और वहाँ आकाशसे बदरिकाधममें उतरे। फिर निकट जाकर उन्होंने पुरातन ऋषि नर-नारायणका दर्शन किया, जो महान् शक्तका पालन करते हुए तपस्यामें संलग्न थे। उस समय वे सब सौकोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी दिखायी पड़ते थे। उनके वस्त्र-स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित हो रहा था। दोनों अपने मस्तकपर जटा धारण किये हुए थे, उनके हाथोंमें हंसका और चरणोंमें चक्रका चिह्न था। शिराल वस्त्र-स्थल, बड़ी-बड़ी भुजाएँ, मेघके समान गम्भीर स्वर, सुन्दर मुख, चौड़े ललाट, बाँकी भौंहें, सुन्दर टोढ़ी और मनोहर नासिकासे उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी तथा उनके मस्तक छत्रके समान सुशोभित होते थे। इन शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न इन दोनों महापुरुषोंका दर्शन करके नारदजीकी बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान् नर और नारायणने भी नारदजीका स्वागत-सत्कार करके उनकी कुशल पूछी। तबनन्तर, नारदजीने उन दोनोंकी ओर देखकर मन-ही-मन कहा—'मैंने श्वेतद्वीपमें जिनका दर्शन किया था उन्होंने समान इन दोनों महापुरुषोंकी भी भाँकी है।' यह सोचकर वे उनकी प्रदक्षिणा करके एक सुन्दर कुशासनपर बैठ गये। तब भगवान् नारायणने नारदजीसे पूछा—'देवर्षे! क्या तुमने श्वेतद्वीपमें जाकर हम दोनोंके मूलस्वरूप सनातन परमात्माका दर्शन किया?'

नारदजीने कहा—भगवन्! मैंने विश्वरूपधारी उन अविनाशी परमेश्वरका दर्शन कर लिया। देवता और ऋषियोंके साथ सम्पूर्ण लोक उन्हींके भीतर विराजमान हैं। आप दोनों सनातन पुरुषोंको देखकर तो मैं इस समय भी श्वेतद्वीपवासी भगवान्की ही भाँकी कर रहा हूँ। वहाँ हमने श्रीहरिमें जो-जो लक्षण देखे थे, आप दोनों भी उन्हीं लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। यही नहीं, आप दोनोंको मैंने वहाँ भी श्रीहरिके पास उपस्थित देखा था और उन्हींके भोजनेसे मैं फिर वहाँ आया हूँ। इस संसारमें आप दोनोंके अतिरिक्त दूसरा कौन है जो तेज, यश और धीमें उनके समान हो। उन्हींने मुझे धर्मका उपदेश दिया और भविष्यमें होनेवाले अपने अवतार-कायोंका भी वर्णन किया है। श्वेतद्वीपमें जो पाँच इन्द्रियोंसे रहित श्वेत वर्णवाले पुदुष हैं, वे सब-सब ज्ञानी और भक्त हैं तथा सदा भगवान्की पूजामें लगे रहते हैं। भगवान् भी उनके साथ सदा प्रसन्न रहते हैं। उनको अपने भक्त और ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। वे विश्वका पालन करनेवाले, सर्व ध्यापक और भक्तवत्सल हैं। कर्ता, कारण और कार्य भी वे

हीं हैं। उनका बल और कान्ति अनन्त है। वे हेतु, आज्ञा, विधि और तत्त्वरूप तथा महाययास्त्री हैं। उन दयालु परमात्माने तीनों लोकोंमें शान्तिका विस्तार किया है। जिनकी वृद्धि अनन्य भावसे एकमात्र उन्हींमें लगी हुई है, उन भक्तोंद्वारा अर्पण की हुई प्रत्येक क्रियाको वे भगवान् स्वयं शिरोधार्य करते हैं। संसारमें उन्हें अपने अनन्य भक्तसे बढ़कर और कोई प्रिय नहीं है।

नर-नारायणने कहा—नारद ! तुमने श्वेतद्वीपमें साक्षात् भगवान्का दर्शन किया है, अतः तुम धन्य हो। वास्तवमें भगवान्ने तुमपर बड़ी कृपा की। वे प्रभु अव्यक्त प्रकृतिके भी मूल कारण हैं; किसीके लिये भी उनका दर्शन मिलना नितान्त कठिन है। देवयों ! हम सब कह रहे हैं, भगवान्को इस जगत्में भक्तसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है; इसीलिये उन्हींमें तुम्हारे सामने अपना स्वरूप प्रकट किया है। एक हजार सूर्योंके एकत्र होनेपर जितनी कान्ति हो सकती है, उतनी ही उस स्थानकी भी कान्ति है, जहाँ साक्षात् भगवान् विराज रहे हैं। विप्रवर ! विश्वविघाता ब्रह्माजीके भी पति उन परमेश्वरसे ही क्षमाकी उत्पत्ति हुई है, जिससे पृथ्वीका संयोग होता है। वे सम्पूर्ण प्राणियोंका हित करनेवाले हैं, उन्हींसे रस प्रकट हुआ है, जो जलका गुण है और जिसके कारण जल द्रवीभूत होता है। उन्हींसे रूपगुणविशिष्ट तेजका प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे संयुक्त होनेके कारण सूर्य-देव इस जगत्में प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हीं पुरुषोत्तमसे स्थानकी उत्पत्ति हुई है, जिससे संयुक्त होकर वायु सम्पूर्ण जगत्में प्रवाहित होती रहती है। वे ही लोकेश्वर शब्दकी भी उत्पत्तिके हेतु हैं, जिससे आकाशका नित्य संयोग है और जिसके ही कारण वह निरावृत्त रहता है। सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर स्थित रहनेवाले मनकी उत्पत्ति भी उन्हींसे हुई है। उस मनसे संयुक्त होकर ही चन्द्रमा प्रकाश गुण धारण करता है। वे भगवान् विद्या-शक्तिके साथ अपने सत्यधाममें विराजमान हैं। तपोधन ! श्वेतद्वीपमें तुम्हें हमलोगोंने भी देखा था। भगवान्से समागम होनेके पश्चात् तुम्हारे मनमें जो संकल्प उठा वह सब भी हमलोगोंको विदित है। इस चराचर जगत्में जो शून्य या अशून्य बात हो चुकी है, हो रही है या होनेवाली है, वह सब उस समय देवदेव भगवान्ने तुम्हें बतलाया था।

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कठोर तपस्यामें

प्रवृत्त हुए भगवान् नर और नारायणकी यह बात सुनकर नारदजीने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम क्रिया और नारायणके मन्त्रोंका त्रिधिवत् जप करते हुए वे एक हजार दिव्य वर्षोंतक उन्हींके आश्रमपर रहे। वहाँ प्रतिदिन भगवान्का ध्यान और पूजन यही उनकी जीवन-वर्षा थी। इस प्रकार भगवान्की कथा सुनते और प्रतिदिन उनका दर्शन करते हुए बदरिकाश्रममें एक हजार वर्ष पूरा होनेपर नारदजी हिमालय पर्वतपर स्थित अपने आश्रममें चले गये और वे विख्यात तपस्वी नर-नारायण पुनः उत्तम तपस्यामें संलग्न हो गये। जनमेजय ! तुम प्रारम्भसे ही यह कथा सुनकर पवित्र हो गये हो। जो मनुष्य अविनाशी भगवान् नारायणके साथ मन, वाणी या क्रियाके द्वारा द्वेषभाव रखता है, उसका न इस लोकमें ठिकाना है न परलोकमें; उसके पितर सदा नरकमें टूटे रहते हैं। भगवान् विष्णु सबके आत्मा हैं, भला उनसे कौन द्वेष करेगा ? राजन् ! मेरे गुरु गन्धर्वतीनन्दन व्यास-जीने इस श्रेष्ठ माहात्म्यका वर्णन किया था, उन्हींके मुँहसे मैंने इसको सुना है और वही तुम्हें भी सुनाया है। अब तुम अपने संकल्पके अनुसार इस महान् यज्ञको पूर्ण करो।

सौति कहते हैं—शौनक ! वंशम्पायनजीके मुखसे यह महान् उपाख्यान सुनकर राजा जनमेजयने अपने यज्ञको पूर्ण करनेका कार्य आरम्भ किया। तुमने नैमिषारण्यवासी ऋषियोंके सामने जिसके विषयमें प्रश्न किया था, वह नारायणीय उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। परम ऋषि नारायण सम्पूर्ण मनुष्यों और लोकोंके स्वामी हैं। इस विद्याल पृथ्वीको उन्हींने ही धारण कर रखा है। वे वैदिक धर्म और विनयका पालन करनेवाले, शम और दमकी निधि, धर्म-नियममें परायण, देवताओंका हित साधन करनेवाले, असुरविनाशक, तपके षण्ढार, महान् यज्ञके भाजन, मधु-कैटभका वध करनेवाले, धर्मज्ञोंको सद्गति एवं अमय प्रदान करनेवाले तथा यज्ञमें भाग ग्रहण करनेवाले हैं—ऐसे भगवान्की तुम धारण लो। जो सम्पूर्ण जगत्के साक्षी, अजन्मा, अन्तर्दामी, पुराणपुरुष, सूर्योंके समान तेजस्वी, ईश्वर और सबकी गति हैं, उन परमेश्वरको तुम सब लोग एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करो। वे इस जगत्के आविष्कारण, मोक्षके आश्रय, सूक्ष्म-स्वरूप, सबके धारण देनेवाले, अविचल और सनातन पुरुष हैं। अपने मनको यशमें रखनेवाले सांख्ययोगी उन्हींको बुद्धिके द्वारा प्राप्त करते हैं।

हयग्रीव-अवतार, नारायणकी महिमा तथा भक्तिधर्मकी परम्पराका वर्णन

शौनकेने पूछा—भगवन् ! हमने परमेश्वरके माहात्म्यकी सुना तथा उन्होंने धर्मके धर्ममें जो नर-नारायण-रूपसे अवतार धारण किया था, वह बात भी मालूम हुई। अब हम यह जानना चाहते हैं कि जगत्की धारण करनेवाले भगवान्ने अद्भुत रूप और प्रभावसे मुक्त हयग्रीव-अवतार क्यों धारण किया था ? और उस रूपमें भगवान्का दर्शन करके ब्रह्माजीने कौन-सा कार्य सम्पन्न किया ?

शौनकेने कहा—शौनक ! भगवान्के हयग्रीव-अवतारकी चर्चा सुनकर राजा जनमेजयको भी सुन्दारी ही तरह संदेह हुआ था, तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया—'विप्रवर ! ब्रह्माजीने भगवान्के जिस हयग्रीवरूपका दर्शन किया था, वह किसलिये प्रकट हुआ, यह बतानेकी कृपा करें।'

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! इस जगत्में जितने प्राणी हैं, वे सब ईश्वरके संकल्पसे उत्पन्न हुए पञ्चमहाभूतोंसे युक्त हैं। विराट् स्वरूप भगवान् नारायण इस जगत्के ईश्वर और श्रेष्ठ हैं, वे ही सब जीवोंके अन्तरात्मा, शरदात्मा, सगुण और निर्गुणरूप हैं। अब तुम पञ्चभूतोंके आत्यन्तिक प्रलयकी बात सुनो—पूर्वकालमें जब इस पृथ्वीका एकांशके जलमें, जलका तेजमें, तेजका वायुमें, वायुका आकारामे, आकारका मनमें, मनका व्यक्तमें, व्यक्तका अव्यक्त प्रकृतिमें, अव्यक्तका पुरुष (ब्रह्मा) में और पुरुषका सर्वव्यापक परमात्मामें लय हो गया, उस समय चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार छा गया। उसके सिवा और कुछ नहीं जान पड़ता था। उस अवस्थामें विद्या-शक्तितसे सम्पन्न धीहरत्नि योगनिद्राका आश्रय लेकर कारणरूप जलमें शयन किया तथा नाना गुणोंसे उत्पन्न होनेवाली अद्भुत सृष्टिके सम्बन्धमें विचार करते-करते उन्हें अपने महान् गुणका स्मरण हुआ, उससे अहंकार प्रकट हुआ। वह अहंकार ही चार भूतोंवाले ब्रह्माजी हैं, जो सब लोकोंके पितामह और भगवान् हिरण्यगर्भके नामसे विख्यात हैं। उस समय भगवान् नारायणकी नामसे कमल प्रकट हुआ था, जिसमें कमललोचन ब्रह्माजीका आविर्भाव हुआ। अत्यन्त तेजस्वी सनातन देव ब्रह्माजीने सहस्रदल कमलपर विराजमान होकर जब इधर-उधर दृष्टि डाली तो उन्हें समस्त जगत् जलमय दिखायी पड़ा। तब ब्रह्माजी सत्त्वगुणमें स्थित होकर प्राणियोंकी सृष्टिमें प्रवृत्त हुए। वे जिस कमलपर बैठे हुए थे, उसका पत्ता सूर्यके समान वेदोप्यमान था। उस पत्तेपर पहुँचते ही भगवान् नारायणकी प्रेरणासे जलकी दो बूँदें पड़ी थीं, जो रजोगुण और तमोगुणकी

प्रतीक थीं। आदि-अन्तसे रहित भगवान् अच्युतने उन बौनों बूँदोंकी ओर देखा। उनमेंसे एक बूँद भगवान्की दृष्टि पड़ते ही तमोगुण मधुनामक बँत्यके आकारमें परिणत हो गयी। उस दैत्यका रंग मधुके समान था और उसके शरीरकी कान्ति बड़ी सुन्दर थी। जलकी दूसरी बूँद, जो कुछ कड़ी थी, नारायणकी आज्ञासे रजोगुणसे उत्पन्न कंटम नामक दैत्यके रूपमें प्रकट हुई। तमोगुण और रजोगुणसे युक्त वे दोनों दैत्य मधु और कंटम बड़े बलवान् थे। कमलके आसनपर विराजमान होकर सृष्टि-रचनामें प्रवृत्त हुए ब्रह्माकी ओर दृष्टि पड़ते ही वे दोनों कमलनालकी ओर बढ़े। वहाँ पहुँचकर उन्होंने साकाररूपमें प्रकट हुए चारों वेदोंकी ब्रह्माजीके देखते-देखते सहसा हट लिया। उन सनातन वेदोंकी लेकर वे सुरत समुद्रके सोतर ईशानकोषमें स्थित रसातलमें प्रवेश कर गये।

वेदोंका अपहरण हो जानेपर ब्रह्माजीको बड़ा खेद हुआ, वे मन-ही-मन परमात्मासे कहने लगे 'भगवन् ! वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं, वेद ही मेरे ब्रह्म हैं, वेद ही मेरे आश्रय और वेद ही मेरे उपास्य देव हैं। मेरे जहाँ वेदोंको दो दानवोंने बलात् छीन लिया है। उनके बिना मुझे सब ओर अन्धकार विलायी देता है। वेदोंके बिना मैं संसारकी सृष्टि कैसे कर सकता हूँ ? तीर्थ ! मुझपर यह बड़ा भारी संकट आ गया। इस लोह शोकसे मेरा हृदय फटा जा रहा है।' इस प्रकार विलाप करते-करते उनके मनमें यह विचार उठा कि मैं भगवान् धीहरत्निकी स्तुति करूँ, यह बात ध्यानमें आते ही वे हाथ जोड़कर परम आराध्य परमात्माकी स्तुति करने लगे—'भगवन् ! आप हमारे पूर्वज हैं, वेद आपका हृदय है, आप जगत्के आदि कारक, सबसे श्रेष्ठ, सांख्ययोगकी निधि और सर्वशक्तिमान् हैं, आपकी नमस्कार है। ध्यस्त जगत् और अव्यक्त प्रकृतिको उत्पन्न करनेवाले परमात्मान् ! आपका स्वरूप अचिन्त्य है। आप कल्याणमय मार्ग (मोक्ष) में स्थित हैं। विश्वपालक ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा, किसी योग्यसे उत्पन्न न होनेवाले, जगत्के आधार और स्वाम्भू हैं। मैं आपके प्रसादसे उत्पन्न हुआ हूँ। आपके नेत्र कमलके समान हैं, आपका धीविग्रह विशुद्ध सत्वमय है। आप ही ईश्वर और स्वभाव हैं, आपहीने मुझे जन्म दिया है और आपहीकी कृपासे मुझपर कालका जोर नहीं बनता। आपने मुझे वेदरूपी नेत्र प्रदान किये थे, किन्तु उन्हें हलके छीन लिया। उनके बिना मैं अंधा-सा हो

कृपा करके पुनः उन्हें वापस ला दीजिये; क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं।'

ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वव्यापक भगवान् नारायण योगनिद्राका त्याग कर वेदोंका उद्धार करनेको तैयार हो गये। उन्होंने अपने ऐश्वर्यके द्वारा दूसरा शरीर धारण



किया, जो चन्द्रमाके समान फान्तिमान् था। उनका मस्तक घोड़ेके मस्तकके समान श्वेतवर्ण तथा वेदोंका आश्रय था। उनकी नासिका भी बड़ी सुन्दर थी। नक्षत्र और ताराओंसे युक्त स्वर्ग उनका तिर था। सूर्यकी किरणोंके समान चमकीले बड़े-बड़े घाल थे। आकाश और पाताल उनके फान थे और समस्त भूतोंको धारण करनेवाली पृथ्वी तलाट थी। इसी प्रकार गङ्गा और सरस्वती उनका नितम्ब, महान् समुद्र उनकी भोंहें, सूर्य और चन्द्रमा नेत्र, संघ्या नासिका, अकार संस्कार-विजली जीभ, सोमपान करनेवाले पितर दाँत, गोलोक और ब्रह्मलोक ओठ और फालरात्रि उनकी प्रीवा थी। इस प्रकार अनेक मूर्तियोंसे आवृत हृद्यप्रोचका रूप धारण करके वे जगदीश्वर वहाँसे अन्तर्धान हो गये और रसातलमें प्रवेशकर परम योगका आश्रय ले शिक्षाके नियमानुसार उदात्तादि स्वरोंसे युक्त सामवेदका गान करने लगे। नाव और स्वरसे विशिष्ट सामगानकी यह मधुर ध्वनि रसातलमें सब ओर फँल गयी, जो सब प्राणियोंका हितसाधन करनेवाली थी। दोनों

असुरोंने जब वह शब्द सुना तो वेदोंको बन्धनमें बाँधकर रसातलमें एक ओर फँक दिया और स्वयं जिधरसे वह ध्वनि आ रही थी उसी ओर दौड़े। इसी बीचमें भगवान् हृद्यप्रोचने उस स्थानपर पहुँचकर रसातलमें पड़े हुए सम्पूर्ण वेदोंको अपने अधिकारमें कर लिया और उन्हें लाकर पुनः ब्रह्माजीको सौंप दिया। इसके बाद वे अपने पूर्व रूपको धारण करके फिर ज्यों-के-त्यों सो रहे।

इधर, जब उन दानवोंको शब्द होनेके स्थानपर कुछ दिखायी न पड़ा तो वे पुनः बड़े वेगसे उस स्थानपर आ पहुँचे, जहाँ वेदोंको फँक आये थे; किंतु वहाँ भी कुछ हाथ न आया, वह स्थान खाली ही दिखायी दिया। अब वे बलवान् दंत्य बड़े जोरसे ऊपरकी ओर बढ़े और शीघ्र ही रसातलसे बाहर निकल आये। ऊपर आकर उन्होंने देखा कि पानीके ऊपर शोपनागकी शय्यापर एक चन्द्रमाके समान फान्तिमान् पुरुष सो रहा है। वे विशुद्ध सत्वसे सम्पन्न भगवान् ही थे, जो योगनिद्रामें पीढ़े हुए थे। उन्हें देखकर दानवराज मधु और कंटभ ठहाका मारकर जोर-जोरसे हँसने लगे और रजोगुण तथा तमोगुणके आवेशमें आकर परस्पर कहने लगे—'यह जो श्वेत वर्णवाला पुरुष यहाँ नींद ले रहा है, निस्संदेह यही रसातलसे वेदोंको चुरा लाया है। यह किसका पुत्र है, कौन है और क्यों यहाँ साँपके शरीर-



पर सो रहा है ?' इस प्रकार बातचीत करके उन दोनोंने श्रीहरिको जगया। उन्हें युद्धके लिये उत्सुक देख भगवान् पुरुषोत्तम उठकर खड़े हो गये और उन दोनोंकी ओर झुटि डालकर उन्होंने मन-ही-मन युद्धका निश्चय किया। फिर तो युद्ध प्रारम्भ हो गया और भगवान् मधुसूदनने ब्रह्माजीका मान रखनेके लिये रजोगुण तथा सभोगुणसे प्रभावित हुए उन वस्तुओंको मार डाला। इस प्रकार धैर्योंको धापस साकर और मधु-कूटमको मारकर उन्होंने ब्रह्माजीका शोक दूर किया। तत्परचात् वेदसे सम्मानित और भगवान्से सुरक्षित होकर ब्रह्माजीने समस्त बराबर जगत्की सृष्टि की। भगवान् उन्हें लोकरचनाकी बुद्धि देकर अन्तर्धान हो गये—जहिसि आये थे वहाँ घले गये। इस प्रकार श्रीहरिने प्रवृत्तिधर्मका प्रचार करनेके लिये हृद्यप्रोवरूप धारण किया था। उनका यह वर-दायक रूप परम प्राचीन और विख्यात है। जो ब्राह्मण प्रति-विन् इस अवतारकी कथाको सुनता या स्मरण करता है, उसके अध्ययनका कभी नाश नहीं होता। राजन् ! तुमने जिसके लिये पूछा था, वह हृद्यप्रोवावतारकी प्राचीन कथा मैंने तुम्हें सुना दी। यह उपाख्यान वेदके द्वारा अनुभोवित है। परमात्मा कार्य-साधन करनेके लिये जिस-जिस शरीरको धारण करना चाहते हैं, उसे स्वयं प्रकट कर लेते हैं। वे वेद और तपस्याकी निधि हैं तथा सांख्य, योग, ब्रह्म एवं हृदियरूप हैं। वेदोंका पर्यवसान नारायणमें ही है, यज्ञ नारायणके ही स्वरूप है, तप नारायणकी ही प्राप्ति करानेवाले हैं और नारायणकी प्राप्ति ही उत्तम गति (मोक्ष) है। इतना ही नहीं, श्रुत और सत्य भी नारायणके ही स्वरूप हैं तथा जिसके अनुष्ठानसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वह निवृत्तिप्रधान धर्म भी नारायणको ही लक्ष्य करनेवाला है। प्रवृत्तिधर्म भी नारायणका ही स्वरूप है। भूमिका उत्तम गुण गन्ध, जलका गुण रस, तेजका गुण रूप, वायुका गुण स्पर्श और आकाशका गुण शब्द भी नारायणसे भिन्न नहीं हैं। मन, काल, नक्षत्र-मण्डल, कीर्ति, श्री, सङ्गीत, सम्पूर्ण देवता तथा सांख्य और योगशास्त्र—ये सब नारायणके ही स्वरूप हैं। पुरुष, प्रधान, प्रभाव, कर्म तथा बँध—ये जिन वस्तुओंके कारण हैं, वे भी नारायणरूप ही हैं। अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न-भिन्न प्रकारके करण, नाना प्रकारकी असंग-असंग चेष्टाएँ तथा बँध—इन पाँच कारणोंके रूपमें सर्वत्र धीहरि ही विराजमान हैं। जो लोग सर्वव्यापक हेतुओंसे तत्त्वको जाननेको इच्छा रखते हैं, उनके लिये महायोगी नारायण ही एकमात्र ज्ञातव्य तत्त्व हैं। सम्पूर्ण लोक, ब्रह्मादि देवता, महात्मा श्रद्धि, सांख्यके विद्वान्, योगी और आत्मज्ञानी दिति—इन सबके मनकी धातें भगवान् जानते हैं; किन्तु उनके मनमें क्या है ? यह किसीको पता नहीं

है। समस्त विश्वमें जो लोग देवताओंके लिये यज्ञ और पितरोंके लिये धाढ करते हैं, दान देते हैं और महान् तप करते हैं, उन सबके आश्रय भगवान् विष्णु ही हैं। वे अपने ऐश्वर्ययोगमें स्थित रहते हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके आवास-स्थान होनेसे उन्हें धारुवेव कहते हैं। वे परम महर्षि नारायण नित्य, महान् ऐश्वर्यसे युक्त और गुणोंसे रहित हैं तो भी जैसे गुण-हीन काल श्रुतके गुणोंसे युक्त होता है, उसी प्रकार वे भी समय-समयपर गुणोंको स्वीकार करते हैं। उन महात्माके गमनागमनको कोई नहीं जानता। जो जानी महर्षि हैं, वे ही उन नित्य अन्तर्दामी परमात्माका साक्षात्कार करते हैं।

जनमेजयने कहा—ब्रह्मन् ! भगवान् अनन्यभावसे भजन करनेवाले अपने सभी भक्तोंको प्रसन्न करते और उनकी विधिवत् को हुई पूजाको स्वीकार करते हैं—यह कितने आनन्दकी बात है ! संसारमें जिन लोगोंकी वासनाएँ बंध्य हो गयी हैं और जो पुण्य-वापसे रहित हो गये हैं, उन्हें परम्परासे जो गति प्राप्त होती है, उसका भी आपने वर्णन किया है; किन्तु मेरी समझमें जो ब्राह्मण उपनिषदोंसहित सम्पूर्ण वेदोंका विधिवत् स्वाध्याय करते हैं तथा जो संन्यास-धर्मका पालन करते हैं, इन सबसे उत्तम गति उन्हींको प्राप्त होती है, जो भगवान्के अनन्य भक्त हैं। भगवन् ! इस भवितरूप धर्मका कितने उपदेश किया है ? इसका आदि उपदेशक कोई देवता है या श्रद्धि ? एकान्त भक्तोंकी नित्य-धर्या क्या है ? और वह कबसे प्रवर्तित हुई है ? मेरे इस संदेहको दूर कीजिये; क्योंकि मुझे इन सब बातोंकी जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा है।

वंशम्पायनजीने कहा—राजन् ! जिस समय कौरव और पाण्डवोंकी सेनाएँ युद्धके लिये (कुदक्षेत्रके मंडानमें) डटी हुई थीं और अर्जुन युद्धसे अनमने हो रहे थे, उस समय स्वयं भगवान्ने उन्हें मोतामें इस धर्मका उपदेश दिया तथा सृष्टिके आदिमें जब भगवान् नारायणसे ब्रह्माजीका मानसिक जन्म हुआ, उस समय उन्होंने भी अमित तेजस्वी ब्रह्माजीको इस धर्मका उपदेश दे करके कहा—'तुम युगोंके धर्म तथा निष्काम कर्मका विधान करो। यह आदेश देकर वे अज्ञानात्माकासे परे अपने परमधामको चले गये। तत्परचात् सबको घर देनेवाले लोकापितामह ब्रह्माजीने स्थावर-जङ्गम-रूप सम्पूर्ण जगत्को रचना की। सृष्टिके प्रारम्भकालमें जय अत्यन्त उत्तम सत्ययुगका आरम्भ हुआ था। उस समय ब्रह्माजीने दक्षप्रजापतिको उस धर्मका उपदेश किया। दक्षने अपने उपेष्ट शीहिव आदित्यको, जो सविता (विश्वामान्) से बड़े थे, यह धर्म धत्ताया। उनसे विवस्वान्ने प्राप्त किया, फिर वेतायुगके आरम्भमें विवस्वान्ने मनुको और मनुने लोक

कृपा करके पुनः उन्हें वापस ला दीजिये; क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हूँ।'

ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वव्यापक भगवान् नारायण योगनिद्राका स्थाण कर वेदोंका उद्धार करनेको तैयार हो गये। उन्होंने अपने ऐश्वर्यके द्वारा दूसरा शरीर धारण



किया, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान् था। उनका मस्तक घोड़ेके मस्तकके समान श्वेतवर्ण तथा वेदोंका आश्रय था। उनकी नासिका भी बड़ी सुन्दर थी। नक्षत्र और ताराओंसे युक्त स्वर्ग उनका सिर था। सूर्यकी किरणोंके समान चमकीले बड़े-बड़े बाल थे। आकाश और पाताल उनके कान थे और समस्त भूतोंको धारण करनेवाली पृथ्वी ललाट थी। इसी प्रकार गङ्गा और सरस्वती उनका नितम्ब, महान् समुद्र उनकी भोंहें, सूर्य और चन्द्रमा नेत्र, संख्या नासिका, अकार संस्कार-विजली जीम, सोमपान करनेवाले पितर दाँत, गोलोक और ब्रह्मलोक ओठ और कालरात्रि उनकी घ्रीवा थी। इस प्रकार अनेक भूतियोंसे आवृत हयप्रीवका रूप धारण करके वे जगदीश्वर वहाँसे अन्तर्धान हो गये और रसातलमें प्रवेशकर परम योगका आश्रय ले शिक्षाके नियमानुसार उदात्तादि स्वरोंसे युक्त सामवेदका गान करने लगे। नाद और स्वरसे विशिष्ट सामगानकी वह मधुर ध्वनि रसातलमें सब ओर फैल गयी, जो सब प्राणियोंका हितसाधन करनेवाली थी। दोनों

असुरोंने जब वह शब्द सुना तो वेदोंको बन्धनमें बाँधकर रसातलमें एक ओर फेंक दिया और स्वयं जिधरसे वह ध्वनि आ रही थी उसी ओर दौड़े। इसी बीचमें भगवान् हयप्रीवने उस स्थानपर पहुँचकर रसातलमें पड़े हुए सम्पूर्ण वेदोंको अपने अधिकारमें कर लिया और उन्हें लाकर पुनः ब्रह्माजीको सौंप दिया। इसके बाद वे अपने पूर्व रूपको धारण करके फिर ज्यों-के-त्यों सो रहे।

इधर, जब उन दानवोंको शब्द होनेके स्थानपर कुछ दिखायी न पड़ा तो वे पुनः बड़े वेगसे उस स्थानपर आ पहुँचे, जहाँ वेदोंको फेंक आये थे; किंतु वहाँ भी कुछ हाथ न आया, वह स्थान खाली ही दिखायी दिया। अब वे दलवान् दंत्य बड़े जोरसे ऊपरकी ओर बढ़े और शीघ्र ही रसातलसे बाहर निकल आये। ऊपर आकर उन्होंने देखा कि पानीके ऊपर शेषनागकी शय्यापर एक चन्द्रमाके समान कान्तिमान् पुरुष सो रहा है। वे विशुद्ध सत्त्वसे सम्पन्न भगवान् ही थे, जो योगनिद्रामें पौड़े हुए थे। उन्हें देखकर दानवराज मधु और कंटभ ठहाका मारकर जोर-जोरसे हँसने लगे और रजोगुण तथा तमोगुणके आवेशमें आकर परस्पर कहने लगे—'यह जो श्वेत वर्णवाला पुरुष यहाँ नींद ले रहा है, निस्संदेह यही रसातलसे वेदोंको चुरा लाया है। यह किसका पुत्र है, कौन है और क्यों यहाँ सौंपके शरीर-



पर सो रहा है ?' इस प्रकार धातघोत करके उन दोनोंने श्रीहरिको जगाया । उन्हें युद्धके लिये उत्सुक देख भगवान् पुत्रयोत्तम उठकर खड़े हो गये और उन दोनोंकी ओर दृष्टि डालकर उन्होंने मन-ही-मन युद्धका निश्चय किया । फिर तो युद्ध प्रारम्भ हो गया और भगवान् मधुमुदनेके ब्रह्माजीका मान रखनेके लिये रजोगुण तथा तमोगुणसे प्रभावित हुए उन बँट्योंकी भार डाला । इस प्रकार वेदोंको धापस लाकर और मधु-कैटभको मारकर उन्होंने ब्रह्माजीका शोक दूर किया । तत्परचात् वेदसे सम्मानित और भगवान्से सुरक्षित होकर ब्रह्माजीने समस्त धराचर जगत्की सृष्टि की । भगवान् उन्हें लोकरचनाकी बुद्धि देकर अन्तर्धान हो गये—जहाँसे आये थे वहाँ चले गये । इस प्रकार श्रीहरिने प्रवृत्तिधर्मका प्रचार करनेके लिये ह्यप्रोवहृष घारण किया था । उनका यह वर-दायक रूप परम प्राचीन और विश्वाद्य है । जो ब्राह्मण प्रति-विन इस अवतारकी कथाको सुनता या स्मरण करता है, उसके अध्येयनका कमी भासा नहीं होता । राजन् ! तुमने जिसके लिये पूछा था, वह ह्यप्रोवभावतारकी प्राचीन कथा मैंने तुम्हें सुना दी । यह उपास्थान वेदके द्वारा अनुमोदित है । परमात्मा कार्य-साधन करनेके लिये जिस-जिस शरीरको धारण करना चाहते हैं, उसे स्वयं प्रकट कर लेते हैं । ये देव और तपस्याकी निधि हैं तथा सांख्य, योग, श्रद्धा एवं हविष्यरूप हैं । वेदोंका पर्यवसान नारायणमें ही है, मत्त नारायणके ही स्वरूप हैं, तप नारायणकी ही प्राप्ति करानेवाले हैं और नारायणकी प्राप्ति ही उत्तम गति (भोज) है । इतना ही नहीं, श्रुत और सत्य भी नारायणके ही स्वरूप हैं तथा जिसके अनुष्ठानसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वह निवृत्तिप्रधान धर्म भी नारायणको ही लक्ष्य करनेवाला है । प्रवृत्तिधर्म भी नारायणका ही स्वरूप है । भूमिका उत्तम गुण गन्ध, जलका गुण रस, तेजका गुण रूप, धायुका गुण स्पर्श और आकाशका गुण शब्द भी नारायणसे भिन्न नहीं हैं । मन, काल, नखल-मण्डल, कौति, श्री, लक्ष्मी, सम्पूर्ण देवता तथा सांख्य और योगशास्त्र—ये सब नारायणके ही स्वरूप हैं । पुत्रप, प्रधान, प्रभाव, कर्म तथा वैश्व—ये जिन वस्तुओंके कारण हैं, ये भी नारायणरूप ही हैं । अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न-भिन्न प्रकारके कारण, माता प्रकारकी असग-अलग चेष्टाएँ तथा देव—इन पाँच कारणोंके रूपसे सर्वत्र श्रीहरि ही विराजमान हैं । जो लोग सर्वव्यापक हेतुओंसे तत्त्वको जाननेकी इच्छा रखते हैं, उनके लिये महायोगी नारायण ही एकमात्र मातृव्य तत्त्व हैं । सम्पूर्ण लोक, ब्रह्मादि देवता, महात्मा श्रुति, सांख्यके विद्वान्, योगी और आत्मज्ञानी पति—इन सबके मनकी बातें भगवान् जानते हैं ; किंतु उनके मनमें क्या है ? यह किसीको पता नहीं

है । समस्त विरवमें जो लोग देवताओंके लिये यज्ञ और पितरोंके लिये धाढ़ करते हैं, दान देते हैं और महान् तप करते हैं, उन सबके आश्रय भगवान् विष्णु ही हैं । ये अपने ऐश्वर्ययोगमें स्थित रहते हैं । सम्पूर्ण प्राणियोंके आवास-स्थान होनेसे उन्हें धायुदेव कहते हैं । ये परम महर्षि नारायण नित्य, महान् ऐश्वर्यसे युक्त और गुणोंसे रहित हैं तो भी जैसे गुण-हीन काल श्रुतिके गुणोंसे युक्त होता है, उसी प्रकार वे भी समय-समयपर गुणोंको स्वीकार करते हैं । उन महात्माके गमनागमनको कोई नहीं जानता । जो जानी महर्षि हैं, वे ही उन नित्य अन्तर्धामी परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ।

जन्मेजयनेने कहा—ब्रह्मन् ! भगवान् अनन्यभावसे भजन करनेवाले अपने सभी भक्तोंको प्रसन्न करते और उनकी विधिवत् की हुई पूजाको स्वीकार करते हैं—यह कितने आनन्दकी बात है ! संसारमें जिन लोगोंकी वासनाएँ दग्ध हो गयी हैं और जो पुण्य-पापसे रहित हो गये हैं, उन्हें परम्परासे जो गति प्राप्त होती है, उसका भी आपने वर्णन किया है ; किंतु मेरी समझमें जो ब्राह्मण उपनिषदोंसहित सम्पूर्ण वेदोंका विधिवत् स्वाध्याय करते हैं तथा जो सन्यास-धर्मका पालन करते हैं, इन सबसे उत्तम गति उन्हींको प्राप्त होती है, जो भगवान्के अनन्य भक्त हैं । भगवन् ! इस भवितरूप धर्मका किसने उपदेश किया है ? इसका आदि उपदेशक कोई देवता है या श्रुति ? एकान्त भक्तोंकी नित्य-धर्मा क्या है ? और वह कबसे प्रचलित हुई है ? मेरे इस संदेहको दूर कीजिये ; क्योंकि मुझे इन सब बातोंकी जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा है ।

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! जिन समय कौरव और पाण्डवोंकी सेनाएँ युद्धके लिये (कुक्षेत्रके मैदानमें) डटी हुई थीं और अर्जुन युद्धसे अनमने हो रहे थे, उस समय स्वयं भगवान्ने उन्हें गीतामें इस धर्मका उपदेश दिया था— सृष्टिके आदिमें जब भगवान् नारायणसे ब्रह्माजीका मातृ-रूप जन्म हुआ, उस समय उन्होंने भी अमित तेजस्वी ब्रह्माजीके इस धर्मका उपदेश दे करके कहा—'तुम युगोंके इन्हें नित्यकाम कर्मका विधान करो । यह आदेश देकर अज्ञानान्धकारसे परे अपने परमधामको चले गये । सबको धर देनेवाले लोकपितामह ब्रह्माजीने इस रूप सम्पूर्ण जगत्की रचना की । सृष्टिके अत्यन्त उत्तम सत्ययुगका आरम्भ ब्रह्माजीने वक्षप्रजापतिको अपने उच्यत वीह्वित आश्रित बड़े थे, यह धर्म फिर व्रैतायुगके

कल्याणके लिये अपने पुत्र इक्ष्वाकुको उस धर्मका उपदेश किया। तदनन्तर, इक्ष्वाकुके उपदेशसे इसका विश्वध्यापी प्रचार हो गया। जब संसारका प्रलय होगा तो फिर यह धर्म भगवान् नारायणमें ही लीन हो जायगा। नारदजीने साक्षात् जगदीश्वर नारायणसे रहस्य और संग्रहसहित इस धर्मको प्राप्त किया था। इस प्रकार यह महान् धर्म सत्रसे प्रथम तथा सनातन है, इसके तत्त्वको समझना और इसका ठीक-ठीक पालन करना कठिन है तो भी भगवान्के भक्त इसे सदा धारण किये रहते हैं। इस धर्मको जानकर क्रियाद्वारा अच्छी तरह पालन करने तथा अहिंसा-धर्ममें स्थित रहनेसे भगवान् श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। राजन् ! मैंने तुम्हें प्रसादसे अत्यन्त भक्तिके धर्मका वर्णन किया है। जिनका अन्तःकरण शुद्ध

नहीं है, उनके लिये इस धर्मकी ठीक-ठीक समझना कठिन है। भगवान्में एकान्त भक्ति रखनेवाले मनुष्य प्रायः दुर्लभ हैं। यदि यह संसार भगवान्के अत्यन्त भक्त, अहिंसक, आत्मज्ञानी और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितकारी मनुष्योंसे ही भरा रहे तो सर्वत्र सत्ययुग ही छा जाय, कहीं भी राकाम कर्मका अनुष्ठान न हो। इस प्रकार मेरे गुरु भगवान् व्यासने ऋषियोंके निकट श्रीकृष्ण और भीष्मके सुनते हुए धर्मराज युधिष्ठिरसे इस धर्मका उपदेश किया था और व्यासजीको प्राचीन कालमें महातपस्वी नारदजीसे यह धर्म प्राप्त हुआ था। नारायणकी आराधनामें लगे हुए अनन्य भक्त चन्द्रमाके समान गौर वर्णवाले परब्रह्मस्वरूप भगवान् अच्युतको प्राप्त होते हैं।

अतिथिके कहनेसे धर्मारण्यका नागराजके यहाँ जाना और सूर्यमण्डलसे उनके लौटनेपर उत्तसे उच्छ्वस्तिकी महिमा सुनना

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! आपके बतलाये हुए कल्याणमय भोसधर्मोंका मैंने श्रवण किया, अब आप आश्रम-धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंके लिये जो सबसे उत्तम धर्म हो, उसका उपदेश कीजिये।

भीष्मजीने कहा—राजन् ! इस विषयमें मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुना रहा हूँ, उसे सुनो। प्राचीन कालमें देवर्षि नारदने इन्द्रको यह कथा सुनायी थी। वह प्रसंग इस प्रकार है—एक बार नारदजी देवराज इन्द्रके यहाँ पधारे। इन्द्रने उन्हें अपने समीप ही बिठाकर उनका बड़ा सत्कार किया। थोड़ी देर बैठकर जब नारदजी विश्राम ले चुके तो उनसे इन्द्रने पूछा 'दिव्ये ! इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देयी है क्या ? आप सिद्ध हैं और तीनों लोकोंमें विचरते रहते हैं, जगत्की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हो, यदि आपने कुछ सुना हो, देखा हो अथवा अनुभव किया हो तो उसे कहिये !'

इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर नारदजीने कहा—गङ्गाके दक्षिण किनारेपर महापथनामक उत्तम नगर है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। वह एकाग्रचित्त तथा शान्तभावसे रहने-वाला था। उसका जन्म अत्रिगोत्रमें हुआ था। वेदमें उसकी अच्छी गति थी तथा उसके मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं था। वह सदा धर्मपरायण, क्रोधरहित, नित्य संतुष्ट, जितेन्द्रिय, तप और स्वाध्यायमें संलग्न, सत्यवादी और सत्युद्योगके

सम्मानका पात्र था। उसके घरमें न्यायसे पैदा किये हुए धनका संग्रह था और उसके सगे-सम्बन्धियोंकी संख्या अधिक थी। वह ब्राह्मणोचित शीलमें सम्पन्न तथा उत्तम आजीविकासे जीवन-निर्वाह करनेवाला था। एक बार उसने वेदोक्त धर्म, शास्त्रोक्त धर्म और शिल्पाचार—इन त्रिविध धर्मोंपर मन-ही-मन विचार करके सोचा कि 'क्या करनेसे मेरा कल्याण होगा, मुझे किसका आश्रय लेना चाहिये ?' इसी प्रकार वह प्रतिदिन विचार करता, किंतु किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाता था। एक दिन जब वह इसी सोच-विचारमें पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था, उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा तथा एकाग्रचित्त ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आ पहुँचा। ब्राह्मणने उस अतिथिका विधिवत् सत्कार किया और जब वह सुख-पूर्वक बैठकर आराम करने लगा तो उससे पूछा 'विप्रवर ! आपकी मीठी बातें सुनकर मेरे मनमें आपके प्रति बड़ी आस्था हो रही है। अब आप मेरे मित्र हो गये हैं, इसलिये आपसे कुछ कहना चाहता हूँ; मेरी बात सुनिये। मैं गृहस्थ-धर्मको अब अपने पुत्रके अधीन करके थोठे धर्मका आचरण करना चाहता हूँ, बताइये मेरे लिये कौन-सा मार्ग श्रेयस्कर होगा ? मेरी इच्छा है कि अकेला ही रहूँ और आत्माका आश्रय लेकर उसीमें स्थित हो जाऊँ। आजतककी आयु पुत्ररूपी फल पानेके लिये विषय-भोगोंमें ही बीत गयी। अब परलोकमें राहलक्षका काम देनेवाले आध्यात्मिक धनका संग्रह करना चाहता हूँ।

मुझे इस संसार-सागरसे पार जानेकी इच्छा तो हुई है, किंतु उसके लिये धर्ममय नौका कैसे प्राप्त हो, यह नहीं जान पड़ता। जब मैं मुनता और देखता हूँ कि विषयोंके सम्पर्कमें आये हुए सात्त्विक पुरुष भी तरह-तरहके कष्ट पाते हैं तथा समस्त प्रजाके ऊपर यमराजकी ध्वजा फहरा रही है तो भोग प्राप्त होनेपर भी मेरे मनमें उन्हीं भोगनेकी रचि नहीं होती, इसलिये आप ही अपने बुद्धिबलसे उपदेश देकर मुझे धर्मके मार्गमें लगाइये।'

अतिथिने कहा—ब्राह्मणदेव। इस विषयमें मेरी भी बुद्धि काम नहीं देती, अतः मैं इस प्रश्नका निर्णय नहीं कर सकता। कुछ लोग वानप्रस्थके धर्मोंका पालन करते हैं और कितने ही गार्हस्थ्य-धर्मका आश्रय लिये हुए हैं। कोई राजधर्म, कोई आत्मज्ञान, कोई गुरु-शुश्रूषा और कोई मोन-धतको ही अपनाये बंटे हैं। कुछ लोग माता-पिताकी सेवासे, कुछ लोग अहिंसासे, कुछ लोग सत्यमायणसे और कुछ लोग युद्धमें शत्रुका सामना करते हुए प्राण त्यागनेसे स्वर्गको प्राप्त हुए हैं। कितने ही मनुष्य उच्छ्रुतिके द्वारा सिद्धि प्राप्त करके स्वर्गगामी हुए हैं। कितने ही बुद्धिमान् पुरुष संतुष्ट-चित्त और जितेन्द्रिय हो वेदोक्त व्रतका पालन तथा स्वाध्याय करते हुए स्वर्गलोकमें स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार संसारमें धर्मके अनेकों दरवाजे खुले हुए हैं। उन्हीं देसकर भेरी बुद्धि भी चक्करमें पड़ गयी है तो भी मैं तुम्हें परम्परसे उपदेश करूँगा। मेरे गुरुने इस विषयमें मुझे जो बात बतलायी है, वह बता रहा हूँ; सुनो—सर्वकल्पमें जहाँ धर्मचक्रकी स्थापना की गयी थी, उस नैमिषारण्यमें भीमतोके तट-पर नागपुरनामक एक नगर है। उसमें पद्मनाभनामक एक धर्मरत्ना नाग निवास करते हैं। लोगोंमें उनकी पंच नामसे प्रसिद्धि है। वे मन, वाणी और क्रियाके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रसन्न रखते हैं और कर्म, ज्ञान तथा उपासना—इन तीनों मार्गोंका आश्रय करते रहते हैं। विषमताका धर्तव्य करनेवाले पुरुषको वे साम, दान, दण्ड और भेद-नीतिके द्वारा राहपर लाते हैं, समदर्शोंकी रक्षा करते हैं और नेत्र आदि इन्द्रियोंको विचारके द्वारा कुमार्गमें जानेसे रोकते हैं। सुम उन्हींके पास जाकर विद्ययुवक (शिष्यभावसे) अपना अधोष्ट प्रश्न उनके सामने रखे। वे तुम्हें परम धर्मका उपदेश करेंगे। नागराज सबका अतिथि-सत्कार करते हैं, शास्त्रके विद्वान् हैं तथा उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। वे अनुपम तथा वाञ्छनीय सद्गुणोंसे सम्पन्न हैं। स्वभाव तो उनका पत्नीके समान है। वे सदा स्वाध्यायमें लगे रहते हैं। तप, इन्द्रियसंयम और सदाचार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे यत्नका अनुष्ठान करने-वाले, दानियोंके शिरोमणि, समाशील, सदातैयका पासन

करनेवाले, सत्यवादी, बोधदृष्टिसे रहित, शीलवान्, जितेन्द्रिय, यत्नोप अन्नके भोक्ता, कर्तव्य-अकर्तव्यको जाननेवाले, कित्तीसे भी धर न करनेवाले, समस्त प्राणियोंके हितमें लगे रहनेवाले और पवित्र तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न हैं।

ब्राह्मणने कहा—विप्रवर। मुझपर बड़ा भारी बोन्-सा लदा हुआ था, उसे आज आपने उतार दिया। आपकी यह बात सुनकर मुझे बड़ी सान्त्वना मिली है। राह चलनेसे पके हुए बटोहीको शय्या, प्यासको पानी और भूलेको भोजन मिलनेसे जितना संतोष होता है तथा प्रेमीके दरानसे जितना आनन्द मिलता है, उतना ही आनन्द आज आपकी बातोंसे मुझे मिल रहा है। महात्मन्। आपने मुझे जैसी सलाह दी है वैसे ही करूँगा। अब सूर्य अस्तावत्तको जा रहे हैं, आजकी रात आप मेरे साथ यहाँ रह जाइये और सुप्तपूर्वक विद्याम करके भतीमाँति अपनी पकावट दूर कीजिये, फिर सबेरे चले जाइयेगा।

तदनन्तर, वह अतिथि उस ब्राह्मणका आतिथ्य ग्रहण करके रातभर उसके यहाँ रहा। दोनोंमें मोक्ष-धर्मके विषयमें बातें होती रहीं। बात करते-करते उनकी सारी रात बड़े सुखसे बीती। सबेरा होनेपर ब्राह्मणद्वारा सम्मानित हो वह अतिथि चला गया और धर्मरत्ना ब्राह्मण अपने घरके लोगोंको अनुमति लेकर अतिथिके बताये हुए नागराजके घरको और चला दिया। रास्तेमें एक मुनिके आश्रमपर जाकर उसने नागराजका पता पूछा। उस मुनिने उसे जो कुछ बताया उसको ध्यानसे सुनकर उसीके अनुसार चलता हुआ वह ब्राह्मण नागराजके स्थानपर पहुँच गया। उनके दरवाजेपर जाकर ब्राह्मणने आवाज दी। उसे सुनकर धर्मपर प्रेम रखनेवाली नागराजकी पतिव्रता पत्नी ब्राह्मणके सामने आयी और शास्त्रविधिके अनुसार उसका पूजन करके स्वागत करती हुई बोली—'ब्राह्मणदेव। आता कीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ?'

ब्राह्मणने कहा—देवि। तुमने मधुर वाणीसे मेरा स्वागत और पूजन किया, इससे मेरी थकावट दूर हो गयी। अब मैं महात्मा नागराजका दर्शन करना चाहता हूँ, यहाँ मेरा सबने बड़ा कार्य और मनोरथ है और इसीके लिये आज मैं उनके इस आश्रमपर आया हूँ।

किंतु उस समय नागराज वहाँ उपस्थित न थे, वे सूर्य-का रय खींचने चले गये थे; इसलिये ब्राह्मणने कहा—'देवि। जब नागराज यहाँ आ जायें तो शास्त्रमाथीसे उन्हें मेरे आग्रहकर समाचार बतला देना। मैं उनकी प्रतीक्षा करता हुआ गोमतीके तटपर निवास करूँगा।' मह

वह ब्राह्मण गोमती नदीके किनारे चला गया और वहाँ निराहार रहकर तपस्या करने लगा। उसके भोजन न करनेसे वहाँ रहनेवाले नागोंको बड़ा दुःख हुआ। तब नागराजके बन्धु-बान्धव, स्त्री और पुत्र सब मिलकर ब्राह्मणके पास गये और वारंवार उसकी पूजा करके कहने लगे—'तपोधन ! आपको यहाँ आये आज छः दिन हो गये; किंतु अभीतक आप भोजन लानेके लिये हमें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। आप हमारे घर अतिथिके रूपमें आये हैं और हम आपको सेवामें उपस्थित हुए हैं। आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है; क्योंकि हम सब लोग गृहस्थ हैं। ब्राह्मणदेव ! आप क्षुधाकी निवृत्तिके लिये हमारे लाये हुए फल, मूल, साग, दूध अथवा अन्न अवश्य स्वीकार कीजिये। इस वनमें रहकर आपने भोजन छोड़ दिया है, इससे हमारे धर्ममें बाधा आती है। बालकसे लेकर वृद्धतक हम सब लोगोंको इस बातका कष्ट है। हमारे फुलमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो देवता, अतिथि और बन्धुओंको अन्न देनेके पहले ही भोजन कर लेता हो।'

ब्राह्मणने कहा—नागगण ! आपलोगोंकी बातोंसे ही मैं तृप्त हो गया। अब नागराजके आनेमें सिर्फ आठ दिन बाकी हैं। यदि आठ रात बीत जानेपर भी वे नहीं आये तो मैं आपलोगोंके कहनेसे भोजन कर लूँगा। उनके आगमनके लिये ही मैं इस व्रतका पालन कर रहा हूँ, आपलोग इसमें विघ्न न डालें। मेरे लिये संताप करना उचित नहीं है, आप सब लोग अपने स्थानपर लौट जाइये।

ब्राह्मणके इस प्रकार कहनेपर वे नागगण अपने प्रयत्नमें असफल होकर घर लौट गये। तदनन्तर, जब समय पूरा हो गया और नागराजकी डचूटी समाप्त हो गयी तो सूर्यदेवकी आज्ञा लेकर वे घर लौट आये। वहाँ उनकी पत्नी पर धोनेके लिये जल लेकर सेवामें उपस्थित हुई। नागराजने उससे पूछा—'कल्याणी ! मेरे द्वारा बताया हुई विधिके अनुसार तुम देवता और अतिथिके पूजनमें तत्पर तो रही हो न ? मेरे वियोगके कारण कमी धर्मसे विमुख तो नहीं हुई ?'

नागपत्नी बोली—नागराज ! पत्नीके लिये पतिकी आज्ञाका पालन करना सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है, आपके उपदेशसे इस बातको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब आप सदा धर्ममें स्थित रहते हैं तो मैं कैसे सन्मार्गका त्याग करके दुरे रास्तेपर पर रखूँगी। महामाग ! देवताओंकी आराधनामें कोई कमी नहीं आयी है। अतिथि-सत्कारके लिये भी मैं सदा सावधान रहती हूँ, आलस्यको कमी पास नहीं फटकने देती; किंतु आज पंद्रह दिनोंसे एक ब्राह्मणदेवता यहाँ पधारे हुए हैं, वे मुझसे अपना काम कुछ नहीं बताते,

केवल आपका दर्शन चाहते हैं और उसके ही लिये उत्सुक होकर कठोर व्रतका पालन करते हुए गोमतीके तटपर बंठे हैं। उन्होंने मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करा ली है कि नागराजके आते ही उन्हें मेरे पास भेज देना, अतः अब आपको वहाँ जाना और ब्राह्मणदेवताको दर्शन देना चाहिये।

नागने पूछा—प्रिये ! ब्राह्मणरूपमें तुमने किसका दर्शन किया है ? वे कोई देवता हैं या मनुष्य ? भला मनुष्योंमें कौन मुझे देखनेकी इच्छा कर सकता है और यदि दर्शनकी इच्छा करे भी तो इस तरह हुक्म देकर कौन बुला सकता है ?

नागपत्नी बोली—नाथ ! उनकी सरलता देखकर तो यही जान पड़ता है कि वे कोई देवता नहीं हैं। मुझे तो उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता यह जान पड़ी है कि वे आपके बड़े भक्त हैं। जैसे पपीहा पानीके लिये सालभर वर्षाकी वाट देखता रहता है, उसी प्रकार वे आपके दर्शनकी प्रतीक्षा करते हैं। इसलिये आप अपने स्वामाविक क्रोधका परित्याग करके अब उन्हें दर्शन दीजिये। उनकी आशा भङ्ग करके अपनेको भस्म न कीजिये। जो आशा लगाकर शरणमें आये हुए जीवोंके आँसू नहीं पोंछता, वह राजा हो या राज-पुत्र, उसे झूठहत्याका पाप लगता है। मौन रहनेसे ज्ञानरूपी फलकी प्राप्ति होती है, दान देनेसे यश बढ़ता है, सत्य बोलनेसे वाणीकी पटुता और परलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। न्यायपूर्वक धनका उपार्जन करनेसे उत्तम फल मिलता है। अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य भी यदि दूसरेके संघर्षसे रहित तथा आत्माका कल्याण करनेवाला हो तो उसको करनेसे कोई नरकमें नहीं पड़ता।

नागने कहा—प्रिये ! जातिद्वेषके कारण ही मुझे कभी-कभी अभिमान और रोषका शिकार हो जाना पड़ता है; किंतु आज तुमने अपने उपदेशरूप अग्निके द्वारा मेरे संकल्प-जनित क्रोधको भस्म कर डाला। मेरी दृष्टिमें क्रोधसे बढ़कर मोहमें डालनेवाला कोई दोष नहीं है और क्रोधके लिये सर्प-जाति अधिक बदनाम है। इसलिये आज तुम्हारी बात सुनकर तपस्याके शत्रु और कल्याणसे भ्रष्ट करनेवाले इस क्रोधको मैंने काबूमें कर लिया। तुम-जैसी गुणवती स्त्रीको पाकर मैं अपने सौभाग्यकी विशेष सराहना करता हूँ। अच्छा, अब मैं गोमतीके तटपर, जहाँ वे ब्राह्मण देवता विराजमान हैं, जाता हूँ। उनकी जो इच्छा होगी उसे पूर्ण करूँगा; वे सर्वथा कृतार्थ होकर अपने घर लौटेंगे।

यह कहकर नागराज मन-ही-मन उस ब्राह्मणके कार्यका विचार करते हुए उसके पास गये और वहाँ पहुँचकर मधुर वाणीमें बोले—'द्विजवर ! मेरे अपराधको क्षमा कीजिये,



मुमपर श्रेय न कीजियेगा। मैं स्नेहवश आपके सामने आकर पूछता हूँ, बताइये किसके लिये, किस प्रयोजनसे यहाँ आये हैं और गोमतीके इस एकान्त तटपर आप किसको उपासना कर रहे हैं।'

ब्राह्मण बोला—मेरा नाम धर्मारण्य है, मैं नागराज पद्मनाभका दर्शन करनेके लिये यहाँ आया हूँ, उन्हींसे मुझे कुछ काम है। उनके स्वजनोंसे मैंने सुना है कि वे यहाँसे दूर गये हुए हैं। अतः जैसे किसान वर्षाको राह देखता है, उसी तरह मैं भी उनकी बाट जोह रहा हूँ और उनके कल्याणके लिये वेदका पारायण कर रहा हूँ।

नागने कहा—महामाग! आपका आचरण बड़ा ही कल्याणमय है। आप बड़े ही सत्यरूप और सज्जनोपर दया करनेवाले हैं; क्योंकि दूसरोंपर स्नेहदृष्टि रखते हैं। मैं ही वह नाग हूँ, जिससे आप मिलना चाहते हैं; इच्छानुसार आत्मा दीजिये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ? अपनी स्त्रीसे आपके आगमनका समाचार सुनकर मैं स्वयं ही आपसे मिलने आया हूँ। आपने हम सब लोगोंको अपने गुणोंके मोल धरोद लिया है; क्योंकि आप अपने हितकी बात भूलकर मेरे ही कल्याणका चिन्तन कर रहे हैं।

ब्राह्मण बोला—नागराज! मैं आपहीके दर्शनकी इच्छासे यहाँ आया हूँ और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।

इस समय मेरे मनमें एक नया प्रश्न उठा है, पहले इसका उत्तर दे लीजिये, उसके बाद अपना कार्य निवेदन करूँगा। आप सूर्यके एक पहिलेवाले रथको लीचनेके लिये जाया करते हैं, यदि यहाँ कोई आरचयजनक बात आपने देखी हो तो बतानेकी कृपा करें।

नागने कहा—ब्रह्मन्! भगवान् सूर्य अनेकों आरचयोंके स्थान हैं, जिनके तेजमें स्वयं परमात्माका निवास है, जिनसे नाना प्रकारके बीज उत्पन्न होते हैं, जिनके ही सहारे चराचर जगत्के साथ समस्त पृथ्वी टिकी हुई है तथा जिनके मण्डलमें आदि-अन्तरहित सनातन पुण्योत्तम नारायण विराजमान हैं; उनसे बढ़कर आरचयोंकी वस्तु और क्या हो सकती है? किंतु इन सब आरचयोंसे भी बढ़कर एक आरचयोंकी बात मैं बता रहा हूँ, उसे सुनिये—प्राचीनकालकी बात है, सोपहरके समय भगवान् भास्कर सम्पूर्ण लोकोंको तथा रहे थे। उसी समय दूसरे सूर्यके समान एक तेजस्वी पुण्य बिलामी पड़ा। वह अपने तेजसे सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करता हुआ मानो आकाशको घोरकर सूर्यकी ओर बढ़ा आ रहा था। पास आनेपर भगवान् सूर्यने उसे घटनेके लिये अपनी दोनों भुजाएँ फैला दीं। उसने भी सम्मानके लिये अपना दाहिना हाथ सूर्यकी ओर बढ़ा दिया। तत्परचात् आकाशको भेदकर वह सूर्यकी किरणोंके समूहमें समा गया और एक ही क्षणमें तेज-राशिके साथ एकाकार होकर सूर्यस्वरूप हो गया। उस समय हमलोगोंके मनमें यह संदेह हुआ कि इन दोनोंमें असली सूर्य कौन थे, जो इस रथपर बँडे हुए थे वे अथवा जो अभी पधारे थे वे? ऐसी गड़वा होनेपर हमने सूर्यसे पूछा—'भगवन्! ये जो द्वितीय सूर्यके समान आकाशको लीचकर यहाँतक आये हैं, कौन थे?'

सूर्यने कहा—ये उच्छ्वत्तिका पातन करनेवाले एक सिद्ध मुनि थे, जो दिव्य लोकको प्राप्त हुए हैं। फल, मूल, सुले पत्ते, पानी और हवा—यही इनके भोजनकी सामग्री थी। इन्होंने संहिताके मन्त्रोंसे भगवान् शंकरका स्तवन किया था। ये सदा अपने मनको यशमें रखते थे, किंतुका सङ्ग नहीं करते थे और बड़े निःस्पृह थे। खेत आदिके गिरे हुए अनाजके दाने अथवा भाल भोजनकर खाते और उसीसे जीविका चलाते थे, साथ ही समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते थे। ऐसे भोगोंको जो उत्तम गति प्राप्त होती है, उसे वेवता, गन्धर्व, असुर और नाग कोई नहीं पा सकते।

विप्रवर! सूर्यमण्डलमें यही आरचय मैंने देता था। सिद्धिको प्राप्त हुए पुण्य इसी तरह इच्छानुसार उत्तम गति पाते हैं।

ब्राह्मणने कहा—नागराज ! इसमें संदेह नहीं कि यह एक आश्चर्यजनक वृत्तान्त है, इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे मनमें जिस बातकी अभिलाषा थी, उसके अनुकूल वचन कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। आपका कल्याण हो, अब मैं यहाँसे जाऊँगा। आप समय-समयपर मेरा स्मरण करते रहें।

नागने कहा—द्विजवर ! आपने अभी अपने मनकी बात तो बतायी ही नहीं, फिर चले कहाँ जा रहे हैं ? जिस कामके लिये यहाँ आये थे, उसे बताइये तो सही। जब वह कार्य सिद्ध हो जाय तो मेरी अनुमति लेकर जाइयेगा। आपका मुझपर अधिक प्रेम है, इसलिये वृक्षके नीचे बैठे हुए राहीकी तरह सिर्फ मुझे देखकर ही चल देना आपके लिये उचित नहीं है। मेरी आपमें भक्ति है और आपकी मुझमें, ऐसी स्थितिमें मेरा यह सारा परिवार आपका है, फिर मेरे यहाँ रहनेमें आपको क्या संकोच है ?

ब्राह्मणने कहा—महाप्राज्ञ ! आपका कहना ठीक है। जो आप हैं सो मैं हूँ, हम दोनोंमें कोई भेद नहीं है। मैं, आप तथा समस्त प्राणी परमात्मामें लीन होनेपर सदा एकरूपताको ही प्राप्त होते हैं। नागराज ! पुण्य-संग्रहके विषयमें मुझे

कुछ संदेह हो गया था, किंतु अब वह दूर हो चुका है। अब मैं उच्छ्रव्रतका पालन करके अपने अभीष्ट अर्थका साधन करूँगा, यही मेरा निश्चय है। आपके द्वारा मेरा कार्य बड़ी उत्तमतासे सम्पन्न हो गया; मैं कृतार्थ हो गया। आपका कल्याण हो, अब मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये।

इस प्रकार नागराजकी अनुमति लेकर वह ब्राह्मण उच्छ्रव्रतकी दीक्षा लेनेके लिये भृगुवंशी च्यवन ऋषिके पास गया। उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और वह उस धर्मानुकूल व्रतका पालन करने लगा। उसने उच्छ्रव्रतकी महिमासे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको च्यवनमुनिसे भी कहा। च्यवनने राजा जनकके दरबारमें नारदजीसे यह पवित्र कथा सुनायी, नारदजीने इन्द्रको और इन्द्रने ब्राह्मणोंको इस कथाका श्रवण कराया। युधिष्ठिर ! परशुरामजीके साथ जब मेरा भयंकर युद्ध हुआ था, उस समय वसुओंने मुझसे यह कथा कही थी। इस समय जब तुमने मुझसे परम धर्मके सम्बन्धमें प्रश्न किया है तो उसीके उत्तरमें मैंने यह पवित्र कथा तुम्हें सुनायी है। तत्पश्चात् वह ब्राह्मण दूसरे वनमें चला गया और वहाँ उच्छ्रव्रति (बिखरे हुए अनाजके दाने और बाल बीनने) से प्राप्त हुए परिमित भोजनका भोजन करता हुआ यम-नियमका पालन करने लगा।

शान्तिपर्व समाप्त

संक्षिप्त महाभारत

अनुशासनपर्व

युधिष्ठिरको समझानेके लिये भीष्मजीके द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याघ्र, सर्प, मृत्यु और कालके संवादका वर्णन

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्पामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्यसला नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी सोला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके ब्रह्मता मूर्तिव्य वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्प्रतियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवासे महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! आपने शान्ति प्राप्त करनेके लिये अनेकों सूक्ष्म उपाय बतलाये, किंतु अभी मेरा हृदय शान्त नहीं हुआ । बाणोंसे भरे हुए आपके शरीर तथा उसके गहरे घावको देखकर मुझे जरा भी चैन नहीं मिलती । बार-बार अपने पापोंको ही याद आती है । पर्वतसे गिरनेवाले ऋत्विगको तरह आपके शरीरसे रक्तको धारा बह रही है—आप पृथ्वीसे सपप हो रहे हैं और अपनी आँखों आपकी यह दुर्दशा देखकर मैं वर्षाकालके कमलकी तरह गला जाता हूँ । मेरे ही कारण दूसरे-दूसरे राजा भी अपने पुत्र और बन्धु-बान्धवोंसहित मारे गये हैं, इससे बड़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है ? ओह ! मैंने ही आपके जीवनका अन्त किया है और मेरे ही द्वारा अन्य सुहृदोंका भी घघ हुआ है । आपको इस दुःखमयी अवस्थामें जमीनपर पड़े देख मुझे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती । यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं परलोकमें इस पापसे छुटकारा पा सकूँ ।

भीष्मजीने कहा—महाभाग ! तुम तो सदा परतन्त्र हो (काल, अदृष्ट और ईश्वरके अधीन हो), फिर अपनेको शुभाराधक कर्मोंका कारण क्यों मानते हो ? चास्तवमें आत्माका कर्तृत्वहीन स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म और इन्द्रियोंको पहुँचके बाहर है । इस विषयमें जानकार लोग गौतमी ब्राह्मणी, व्याघ्र, सर्प, मृत्यु और कालके संवादरूप प्राचीन इतिहासका म० भा०—१७०

उवाहरण दिया करते हैं । पूर्वकालमें गौतमी नामवाली एक बड़ी ब्राह्मणी थी, जो शान्तिके साधनमें लगी रहती थी । एक दिन उसने देखा, उसके इकलौते बेटेको सर्पने डँस लिया और उसकी मृत्यु हो गयी । इतनेहीमें अर्जुनक नामके एक बहेलियेने उस सर्पको जालमें बाँध लिया और अमर्षवशा उसे गौतमीके पास लाकर कहा—देवि ! तुम्हारे पुत्रके प्राण संनेवाला नीध सर्प यही है । जल्दी बताओ, मैं किस तरह इसका वध करूँ ? इसे जलती हुई आगमें मोंक दूँ या इसके शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर दालूँ । बालककी हत्या करनेवाला यह पापी सर्प अब अधिक कालतक जीवित रहनेके योग्य नहीं है ।

गौतमीने कहा—अर्जुन ! तू अभी नादान है, इसे



छोड़ दे। यह मारनेके योग्य नहीं है। होनहारको कोई डाल नहीं सकता, इस बातको जानकर भी इसकी उपेक्षा करके कौन मनुष्य अपने ऊपर पापका बोझ लादेगा? इसको मार डालनेसे मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इसको जीवित छोड़ देनेसे भी कोई हानि नहीं होगी; फिर इस जीवित प्राणीको हत्या करके कौन अगाध नरकमें पड़े?

व्याधने कहा—देवि! मैं जानता हूँ, बड़े-बूढ़े लोग किसी भी प्राणीको कष्टमें पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं। ये उपदेश तो त्वत्स्य पुरुषके लिये हैं। मेरा मन खिन्न हो रहा है, अतः मैं इस नीच सर्पको अवश्य मार डालूँगा। तुम भी इसके मारे जानेपर अपने पुत्रका शोक त्याग देना।

गौतमीने कहा—मुझ-जैसे लोगोंको पुत्र-शोककी पीड़ा नहीं सताती। सज्जन पुरुष सदा धर्ममें ही लगे रहते हैं। इस बालककी मृत्यु इसी तरह होनेवाली थी, इसलिये मैं इस सर्पको मारनेमें असहमत हूँ। तू भी कोमलताका वर्ताव कर और इस सर्पके अपराधको क्षमा करके इसे छोड़ दे।

व्याधने कहा—महाभाग! शत्रुको मारनेमें ही लाभ है।

गौतमी बोली—अर्जुनक! शत्रुको कंद करके उसे मार डालनेसे क्या लाभ होता है? उसको छुटकारा न देनेसे कित्त कामनाकी सिद्धि हो जाती है? क्या कारण है कि मैं सर्पके अपराधको क्षमा न करूँ? तथा किसलिये मोक्ष-प्राप्तिके प्रयत्नसे वञ्चित रहूँ?

व्याधने कहा—गौतमी! इस एक साँपसे बहुतेरे मनुष्योंके जीवनकी रक्षा करना है (क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो बहुतोंको काटेगा)। अनेकोंकी जान लेकर एक जीवकी रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। धर्मको जानने-वाले पुरुष अपराधीका त्याग कर देते हैं; इसलिये तुम भी इस पापी साँपको मार डालो।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! व्याधके बार-बार उक्तानेपर भी महाभाग गौतमीने जब सर्पको मारनेका विचार नहीं किया तो बन्धनसे पीड़ित होकर धीरे-धीरे साँस लेता हुआ वह साँप बड़ी कठिनाईसे अपनेको तँभालकर मनुष्यकी वाणीमें बोला—‘ओ नादान अर्जुनक! इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूँ। मृत्युने मुझे प्रेरित किया है, उसीके कहनेसे मैंने इस बालकको उँसा है, क्रोध करके या अपनी इच्छासे नहीं। यदि इसमें कुछ अपराध है तो वह मेरा नहीं, मृत्युका है।’

व्याधने कहा—ओ सर्प! यद्यपि तूने दूसरेके अधीन होकर यह पाप किया है तथापि तू भी इसमें कारण तो है ही, इसलिये तेरा भी अपराध है। अतः तुझे भी मार डालना चाहिये।

साँपने कहा—जैसे दण्ड और चक्र आदि मिट्टीका बर्तन बनानेमें कारण होते हुए भी कुम्हारके अधीन हैं, इसलिये स्वतन्त्र नहीं माने जाते, इसी प्रकार मैं भी मृत्युके अधीन हूँ। अतः तूने मुझपर जो अपराध लगाया है, वह ठीक नहीं है।

व्याधने कहा—तू अपराधका कारण या कर्ता न भी हो तो भी बालककी मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हुई है, इसलिये मैं तुम्हें वध्य समझता हूँ। नीच! तू बालहत्यारा और क्रूर है। वधके योग्य होकर भी अपनेको बेकसूर साबित करनेके लिये क्यों बहुत बातें बना रहा है?

साँपने कहा—व्याध! जैसे यजमानके यहाँ ऋत्विज लोग अग्निमें आहुति डालते हैं, किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता। इसी प्रकार इस अपराधका दण्ड मुझे नहीं मिलना चाहिये; क्योंकि वास्तवमें मृत्यु ही अपराधी है।

भीष्मजी कहते हैं—राजन्! मृत्युकी प्रेरणासे बालकको उँसनेवाला साँप जब इस तरह अपनी सफाई दे रहा था, उसी समय मृत्युने आकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया—‘सर्प! कालकी प्रेरणासे मैंने तुम्हें प्रेरित किया था, इसलिये इस बालकके विनाशमें न तो मैं कारण हूँ और न तू ही है। जैसे हवा बादलोंको झधर-उधर उड़ाकर ले जाती है, उसी प्रकार मैं भी कालके वशमें हूँ। सात्त्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं, वे सब कालकी ही प्रेरणासे प्राणियोंको प्राप्त होते हैं। पृथ्वी अथवा स्वर्गलोकमें जितने भी स्थावर-जङ्गम पदार्थ हैं, सभी कालके अधीन हैं। यह सारा जगत् ही कालका अनुसरण करनेवाला है। संसारमें जितने प्रकारके प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म तथा उनके फल हैं, वे सब कालके ही वशमें हैं। इस बातको जानकर भी तू मुझे दोष क्यों दे रहा है? यदि ऐसी स्थितिमें भी मुझपर दोषारोपण हो सकता है तो तू भी निर्दोष नहीं है।’

साँपने कहा—मृत्यु! मैं तो न तुम्हें दोषी मानता हूँ न निर्दोष। मेरा कहना इतना ही है कि तूने मुझे बालकको काटनेके लिये प्रेरित किया था। इस विषयमें कालका भी दोष है या नहीं? इसकी जाँच मुझे नहीं करनी है और जाँच करनेका मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है, उसका निवारण तो मुझे जैसे भी हो करना ही चाहिये। मेरा मतलब यह नहीं है कि मेरे बदले मृत्युका दोष साबित हो जाय।

तदनन्तर, सर्पने अर्जुनकसे कहा—अब तो तूने मृत्युकी बात चुन ली। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, अतः मुझे बन्धनमें बाँधकर व्यर्थ कष्ट न दे।

व्याधने कहा—सर्प! मैंने तेरी और मृत्युकी भी बात चुनी, इससे तेरी निर्दोषता नहीं सिद्ध होती। इस बालकके

विनाशमें सुम दोनों ही कारण हो, अतः मैं दोनोंको ही अपराधी मानता हूँ, किसीको भी निरपराध नहीं मानता। सज्जनोंको दुःखमें डालनेवाले इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्युको धिक्कार है ! मृत्युने कहा—व्याध ! हम दोनों कालके अधीन हैं, विवश हैं और उसका हुक्म बजानेवाले हैं। यदि तू अच्छी तरह विचार करेगा तो हम दोषी नहीं प्रतीत होंगे। जगतमें जो कोई काम हो रहा है वह सब कालकी ही प्रेरणासे होता है।

इस प्रकार इनमें बातें हो ही रही थीं तबतक वहाँ काल आ पहुँचा और सप, मृत्यु तथा बर्हेतियेको लक्ष्य करके कहने लगा—व्याध ! मैं, मृत्यु तथा यह सप कोई भी अपराधी नहीं है। प्राणियोंको मृत्युमें हमलोग प्रेरक नहीं हैं। इस बालकने जो कर्म किया था, उसीसे इसको मृत्यु हुई है, इसके विनाशमें इसका कर्म ही कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टीके लोदसे जो-ओ बर्तन बनाना चाहता है बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किये हुए कर्मके अनुसार ही नाना प्रकारके फल भोगता है। जिस प्रकार धूप और छाया दोनों सदा एक-दूसरेसे मिले रहते हैं, उसी तरह कर्म और कर्ता भी एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं। इस प्रकार विचार करनेसे मैं, तू,

मृत्यु, सप अपवा यह बड़ी ब्राह्मणों कोई भी बालकको मृत्युमें कारण नहीं है। यह साधु स्वयं ही अपने मृत्युमें कारण है ! कालके इस प्रकार कहनेपर गौतमी ब्राह्मणोंकी यह निरवयव हो गया कि मनुष्यको अपने कर्मके अनुसार ही फल मिलता है, अतः उसने अर्जुनको कहा—व्याध ! सबकुछ इस बालकके मरणमें फल, सप या मृत्यु कारण नहीं है, यह अपने ही कर्मसे भरा है। तू साँपको छोड़ दे और काल तथा मृत्यु भी अपने-अपने स्थानको चले जायें।

भोष्मजी कहते हैं—तदनन्तर काल, मृत्यु तथा सप जैसे आये थे वैसे ही चले गये और अर्जुनक तथा गौतमी ब्राह्मणोंका भी शोक दूर हो गया। मुधिष्ठिर ! इस उपाख्यानको सुनकर तुम शान्ति धारण करो; शोकमें न पड़ो। सब मनुष्य अपने-अपने कर्मोंके अनुसार मिलनेवाले लोकोंमें ही जाते हैं। तुमने या दुर्योधनने कुछ नहीं किया है। कालकी ही यह सारी करतूत है, उसीने समस्त राजाओंका संहार किया है।

वैशम्पायनजी कहते हैं—भोष्मजीको यह बात सुनकर महातेजस्वी धर्मत राजा मुधिष्ठिरकी चिन्ता दूर हो गयी तथा ये पुनः धर्मविषयक प्रश्न करने लगे।

अतिथि-सत्कारके विषयमें सुदर्शनका उपाख्यान

मुधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! क्या किसी गृहस्थने धर्मका आश्रय लेकर मृत्युपर विजय पायी है ?

भोष्मजीने कहा—एक गृहस्थने जिस प्रकार धर्मका आश्रय लेकर मृत्युपर विजय प्राप्त की है, उसके विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। प्रजापति मनुके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु सूर्यके समान तेजस्वी थे, उन्होंने सो पुत्रोंको जन्म दिया। उनमेंसे इससे पुत्रका नाम दशरथ था, जो माहिष्मती नगरमें राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और सत्यपराक्रमी था। उसका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा था, वह इस भूमण्डलपर राजा मन्दिराश्वके नामसे प्रसिद्ध हुआ। मन्दिराश्वसे क्षुतिमान्का जन्म हुआ, जो महान् तेजस्वी था। उसके विरवविख्यात सुवीरनामक पुत्र हुआ। सुवीरसे दुर्जय और दुर्जयसे दुर्योधनका जन्म हुआ, जो अश्विनीकुमारके समान कान्तिमान् था। वह समस्त राजविषयोंमें श्रेष्ठ समझा जाता था। उसका पराक्रम इन्द्रके समान था। यह संप्रामत्से कभी पीछे पैर नहीं हटाता था। उसके राज्यमें इन्द्र भलीभाँति बर्षा करते थे। उसका सारा राज्य और

नगर नाना प्रकारके रत्न, पशु और धन-धान्यसे परिपूर्ण था। उसके राष्ट्रमें कोई बौन, दुष्टी, रोगी या दुर्बल मनुष्य नहीं था। राजा दुर्योधन अत्यन्त उदार, मनुभावी, किसीके बोध न देखनेवाला, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, कोमल स्वभावावाला और पराक्रमी था। वह कभी अपनी मूठो प्रशंसा नहीं करता था। समय-समयपर यज्ञोंका अनुष्ठान करता, सत्य बोलता, बान देता और किसीका भी अपमान नहीं करता था। वह वेद-वेदाङ्गोंका पारंगत विद्वान् था। एक बार देवनदी नर्मदा उस पुरुषार्थहपर आतसत होकर उसकी पत्नी बन गयी। दुर्योधनने उसके गर्भसे एक कमललोचना कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम था सुदर्शना। वह नामके अनुसार ही रूपमें भी सुदर्शना थी। उसके पहले संसारमें कभी सुन्दरी स्त्री नहीं उत्पन्न हुई थी। राजकुमारी सुदर्शनापर साक्षात् अग्निदेव आसक्त हो गये। उन्होंने ब्राह्मणका रूप धारण करके राजासे उस कन्याको माँगा। राजाने कन्याके मुक्क-रूपमें भगवान् अग्निसे यह वरदान माँगा—'अग्निदेव ! आपकी इस नगरकी रक्षाके लिये सदा इसके समीप रहना होगा।' अग्निने 'एवमस्तु' कहकर राजाकी प्रार्थना स्वीकार

छोड़ दे। यह मारनेके योग्य नहीं है। होनहारको कोई टाल नहीं सकता, इस बातको जानकर भी इसकी उपेक्षा करके कौन मनुष्य अपने ऊपर पापका बोझ लावेगा? इसको मार डालनेसे मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इसको जीवित छोड़ देनेसे भी कोई हानि नहीं होगी; फिर इस जीवित प्राणीकी हत्या करके कौन अगाध नरकमें पड़े?

व्याधने कहा—देवि! मैं जानता हूँ, बड़े-बड़े लोग किसी भी प्राणीको कष्टमें पड़ा देख इसी तरह डुकी हो जाते हैं। ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुषके लिये हैं। मेरा मन खिन्न हो रहा है, अतः मैं इस नीच सर्पको अवश्य मार डालूँगा। तुम भी इसके मारे जानेपर अपने पुत्रका शोक त्याग देना।

गौतमीने कहा—मुझ-जैसे लोगोंको पुत्र-शोककी पीड़ा नहीं सताती। सज्जन पुरुष सदा धर्ममें ही लगे रहते हैं। इस बालकको मृत्यु इसी तरह होनेवाली थी, इसलिये मैं इस सर्पको मारनेमें असहमत हूँ। तू भी कोमलताका बर्ताव कर और इस सर्पके अपराधको क्षमा करके इसे छोड़ दे।

व्याधने कहा—महाभाग! शत्रुको मारनेमें ही लाभ है। गौतमी बोली—अर्जुनक! शत्रुको कँद करके उसे मार डालनेसे क्या लाभ होता है? उसको छुटकारा न देनेसे किस कामनाकी सिद्धि हो जाती है? क्या कारण है कि मैं सर्पके अपराधको क्षमा न करूँ? तथा किसलिये मोक्ष-प्राप्तिके प्रयत्नसे वञ्चित रहूँ?

व्याधने कहा—गौतमी! इस एक साँपसे बहुतेरे मनुष्योंके जीवनकी रक्षा करना है (क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो बहुतोंको काटेगा)। अनेकोंकी जान लेकर एक जीवकी रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। धर्मको जानने-वाले पुरुष अपराधीका त्याग कर देते हैं; इसलिये तुम भी इस पापी साँपको मार डालो।

श्रीधर्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! व्याधके बार-बार उक्तानेपर भी महाभाग गौतमीने जब सर्पको मारनेका विचार नहीं किया तो बन्धनसे पीड़ित होकर धीरे-धीरे साँस लेता हुआ वह साँप बड़ी कठिनाईसे अपनेको सँभालकर मनुष्यकी वाणीमें बोला—‘ओ नादान अर्जुनक! इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूँ। मृत्युने मुझे प्रेरित किया है, उसीके कहनेसे मैंने इस बालकको उँसा है, भ्रोध करके या अपनी इच्छासे नहीं। यदि इसमें कुछ अपराध है तो वह मेरा नहीं, मृत्युका है।’

व्याधने कहा—ओ सर्प! यद्यपि तूने दूसरेके अधीन होकर यह पाप किया है तथापि तू भी इसमें कारण तो है ही, इसलिये तेरा भी अपराध है। अतः तुम्हें भी मार डालना चाहिये।

साँपने कहा—जैसे दण्ड और चक्र आदि मिट्टीका बर्तन बनानेमें कारण होते हुए भी कुम्हारके अधीन हैं, इसलिये स्वतन्त्र नहीं माने जाते, इसी प्रकार मैं भी मृत्युके अधीन हूँ। अतः तूने मुझपर जो अपराध लगाया है, वह ठीक नहीं है।

व्याधने कहा—तू अपराधका कारण या कर्ता न भी हो तो भी बालककी मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हुई है, इसलिये मैं तुम्हें वध्य समझता हूँ। नीच! तू बालहत्यारा और क्रूर है। वधके योग्य होकर भी अपनेको बेकसूर साबित करनेके लिये क्यों बहुत बातें बना रहा है?

साँपने कहा—व्याध! जैसे यजमानके यहाँ ऋत्विज लोग अग्निमें आहुति डालते हैं, किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता। इसी प्रकार इस अपराधका दण्ड मुझे नहीं मिलना चाहिये; क्योंकि वास्तवमें मृत्यु ही अपराधी है।

श्रीधर्मजी कहते हैं—राजन्! मृत्युकी प्रेरणासे बालकको उँसनेवाला साँप जब इस तरह अपनी सफाई दे रहा था, उसी समय मृत्युने आकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया—‘सर्प! कालकी प्रेरणासे मैंने तुम्हें प्रेरित किया था, इसलिये इस बालकके विनाशमें न तो मैं कारण हूँ और न तू ही है। जैसे हवा बादलोंको धड़-उधर उड़ाकर ले जाती है, उसी प्रकार मैं भी कालके वशमें हूँ। सात्त्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं, वे सब कालकी ही प्रेरणासे प्राणियोंको प्राप्त होते हैं। पृथ्वी अथवा स्वर्गलोकमें जितने भी स्यावर-जङ्गम पदार्थ हैं, सभी कालके अधीन हैं। यह सारा जगत् ही कालका अनुसरण करनेवाला है। संसारमें जितने प्रकारके प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म तथा उनके फल हैं, वे सब कालके ही वशमें हैं। इस बातको जानकर भी तू मुझे दोष क्यों दे रहा है? यदि ऐसी स्थितिमें भी मुझपर दोषारोपण हो सकता है तो तू भी निर्दोष नहीं है।’

साँपने कहा—मृत्यु! मैं तो न तुम्हें दोषी मानता हूँ न निर्दोष। मेरा कहना इतना ही है कि तूने मुझे बालकको काटनेके लिये प्रेरित किया था। इस विषयमें कालका भी दोष है या नहीं? इसकी जाँच मुझे नहीं करनी है और जाँच करनेका मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है, उसका निवारण तो मुझे जैसे भी हो करना ही चाहिये। मेरा मतलब यह नहीं है कि मेरे बदले मृत्युका दोष साबित हो जाय।

तदनन्तर, सर्पने अर्जुनकसे कहा—अब तो तूने मृत्युकी बात सुन ली। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, अतः मुझे बन्धनमें बाँधकर व्यर्थ कष्ट न दे।

व्याधने कहा—सर्प! मैंने तेरी और मृत्युकी भी बात सुनी, इससे तेरी निर्दोषता नहीं सिद्ध होती। इस बालकके

विनाराशमें गुम दोनों ही कारण ही, अतः मैं दोनोंको ही अपराधी मानता हूँ, किसीको भी निरपराध नहीं मानता। सज्जनोंको दुःखमें डालनेवाले इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्युको घिबकार है ! मृत्युने कहा—ध्याध ! हम दोनों कालके अधीन हैं, बिश्वास हैं और उसका हुक्म बजानेवाले हैं। यदि तू अच्छी तरह विचार करेगा तो हम दोषी नहीं प्रतीत होंगे। जगत्में जो कोई काम हो रहा है वह सब कालकी ही प्रेरणासे होता है।

इस प्रकार इनमें बातें हो ही रही थीं तबतक वहाँ काल आ पहुँचा और सर्प, मृत्यु तथा बर्हेलियेको लक्ष्य करके कहने लगा—ध्याध ! मैं, मृत्यु तथा यह सर्प कोई भी अपराधी नहीं है। प्राणियोंकी मृत्युमें हमलोग प्रेरक नहीं हैं। इस बालकने जो कर्म किया था, उसीसे इसकी मृत्यु हुई है, इसके विनाराशमें इसका कर्म ही कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टीके तोंदसे जो-जो बर्तन बनाना चाहता है बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किये हुए कर्मके अनुसार ही नाना प्रकारके फल भोगता है। जिस प्रकार धूप और छाया दोनों सदा एक-दूसरेसे मिले रहते हैं, उसी तरह कर्म और कर्ता भी एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं। इस प्रकार विचार करनेसे मैं, तू,

मृत्यु, सर्प अथवा यह बूढ़ी ब्राह्मणी कोई भी बालककी मृत्युमें कारण नहीं है। यह सिद्ध स्वयं ही अपनी मृत्युमें कारण है।

कालके इस प्रकार कहनेपर गौतमी ब्राह्मणीको यह निरश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने कर्मके अनुसार ही फल मिलता है, अतः उसने अर्जुनको कहा—ध्याध ! सबमुझ इस बालकके मरणमें काल, सर्प या मृत्यु कारण नहीं है, यह अपने ही कर्मसे मरा है। तू साँपको छोड़ दे और काल तथा मृत्यु भी अपने-अपने स्थानको चले जायें।

भीष्मजी कहते हैं—तदनन्तर काल, मृत्यु तथा सर्प जैसे प्राणी चले गये और अर्जुनक तथा गौतमी ब्राह्मणीका भी शोक दूर हो गया। पुष्पिष्ठिर ! इस उपाख्यानको सुनकर तुम शान्ति धारण करो; शोकमें न पड़ो। सब मनुष्य अपने-अपने कर्मके अनुसार मिलनेवाले लोकमें ही जाते हैं। तुमने या दुर्पोषणने कुछ नहीं किया है। कालकी ही यह सारी करतूत है, उसीने समस्त राजाओंका संहार किया है।

वैशम्पायनजी कहते हैं—भीष्मजीको यह बात सुनकर महातेजस्वी धर्मत राजा पुष्पिष्ठिरकी विन्ता दूर हो गयी तथा ये पुनः धर्मवियथक प्रसन्न करने लगे।

अतिथि-सत्कारके विषयमें सुदर्शनका उपाख्यान

पुष्पिष्ठिरने पूछा—पितामह ! क्या किसी गृहस्थने धर्मका आश्रय लेकर मृत्युपर विजय पायी है ?

भीष्मजीने कहा—एक गृहस्थने जिस प्रकार धर्मका आश्रय लेकर मृत्युपर विजय प्राप्त की है, उसके विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। प्रजापति मनुके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था इश्वाकु। राजा इश्वाकु सूर्यके समान तेजस्वी थे, उन्होंने सौ पुत्रोंको जन्म दिया। उनमेंसे दसवें पुत्रका नाम दशरथ था, जो माहिष्मती नगरीमें राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्माला और सत्यपराक्रमी था। उसका पुत्र भी बड़ा धर्माला था, वह इस भूमण्डलपर राजा मदिशरथके नामसे प्रसिद्ध हुआ। मदिशरथसे द्युतिमान्का जन्म हुआ, जो महान् तेजस्वी था। उसके विरबिह्वलात् सुवीरनामक पुत्र हुआ। सुवीरसे बुजेंग और बुजेंगसे दुर्पोषणका जन्म हुआ, जो अश्विनोकुमारके समान कास्तिमान् था। वह समस्त राजर्षियोंमें श्रेष्ठ समझा जाता था। उसका पराक्रम इन्द्रके समान था। वह संप्रामसे कभी पीछे पैर नहीं हटाता था। उसके राज्यमें इन्द्र भलोमार्ति वर्षा करते थे। उसका सारा राज्य और

नगर नाना प्रकारके रत्न, पशु और धन-धान्यसे परिपूर्ण था। उसके राष्ट्रमें कोई दीन, दुखी, रोगी या दुर्बल मनुष्य नहीं था। राजा दुर्पोषण अत्यन्त उदार, मृदुभाषी, किसीके दोष न देखनेवाला, जितेन्द्रिय, धर्माला, कोमल स्वभाववाला और पराक्रमी था। वह कभी अपनी मूर्खी प्रशंसा नहीं करता था। समय-समयपर यज्ञोंका अनुष्ठान करता, सत्य बोलता, दान देता और किसीका भी अपमान नहीं करता था। वह वेद-वैदाङ्गोंका पारंगत विद्वान् था। एक बार देवनाबी नर्मदा उस पुरुषसिंहपर आसक्त होकर उसकी पत्नी बन गयी। दुर्पोषणने उसके गर्भसे एक कमललोचना कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम था सुदर्शना। वह नामके अनुसार ही रूपमें भी सुदर्शना थी। उसके पहले संसारमें वंशी सुन्दरी स्त्री नहीं उत्पन्न हुई थी। राजकुमारी सुदर्शनापर साक्षात् अग्निदेव आसक्त हो गये। उन्होंने ब्राह्मणका रूप धारण करके राजासे उस कन्याको माँगा। राजाने कन्याके शुक-रूपमें भगवान् अग्निसे यह वरदान माँगा—अग्निदेव। आपको इस नगरकी रक्षाके लिये सदा इसके समीप रहना होगा। अग्निने 'एकमस्तु' कहकर राजाकी प्रार्थना स्वीकार

फर ली। तबसे आजतक माहिष्मती नगरीके समीप अग्नि-देवकी उपस्थिति रहती है। दक्षिण दिशाकी विजय करते समय सहदेवने भी उनका दर्शन किया था।

तदनन्तर, राजा दुर्योधनने कन्याको वस्त्राभूषणोंसे विभूषित कर उसे अग्निदेवको समर्पित कर दिया और अग्निने वैदिक विधिसे अनुसार सुदर्शनाको अपनी पत्नी बनाया। उसका रूप, स्वभाव, उत्तम कुल, शरीरकी गठन और शोभा देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसमें गर्माधान करनेका विचार किया। कुछ काल पश्चात् उसके गर्भसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। वह रूपमें पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर था और उसे बचपनमें ही सनातन परब्रह्मका ज्ञान हो गया था। उन दिनों राजा नृगके पितामह ओघवान् इस पृथ्वीपर राज्य करते थे। उनके ओघवती नामवाली एक कन्या थी, जो देवकन्याके समान सुन्दरी थी। उन्होंने स्वयं आकर अपनी कन्या सुदर्शनको पत्नीरूपमें प्रदान कर दी। सुदर्शन ओघवतीके साथ पुरुषोत्तम रहकर गृहस्थ-धर्मका पालन करने लगे। वे बड़े बुद्धिमान् और तेजस्वी थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गृहस्थ रहकर भी मृत्युको जीत लूंगा। एक दिन सुदर्शनने अपनी पत्नी ओघवतीसे कहा—‘कल्याणी! तुम कभी किसी अतिथिकी इच्छाके प्रतिकूल न करना। जिस-जिस वस्तुसे अतिथिको संतोष हो, वह-वह सदा उसे देती रहना। अपना शरीर दान करनेका भी अवसर आ जाय तो मनमें कभी अल्पया विचार न करना; क्योंकि गृहस्थोंके लिये अतिथि-सेवासे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यदि तुम्हें मेरा वचन मान्य हो तो तुम सदा इस बातको याद रखना।’

यह सुनकर ओघवतीने दोनों हाथ जोड़ मस्तकमें लगाकर कहा—‘प्राणनाथ! आपकी आज्ञासे कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, जो मैं न कर सकूँ।’ तत्पश्चात् एक दिन अग्निपुत्र सुदर्शन यज्ञकी समिधा लानेके लिये बाहर गये हुए थे, उसी समय उनके घरपर एक ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आया और ओघवतीसे कहने लगा—‘सुन्दरी! यदि तुम गृहस्थोचित धर्मका आदर करती हो तो मेरा सत्कार करो।’ ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर उस पशस्विनी राजकन्याने वेदोक्त विधिसे उनका पूजन किया और आसन तथा पाद्य, अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा—‘विप्रवर! आपको किस वस्तुकी आवश्यकता है? आपकी सेवामें क्या भेंट करूँ?’ ब्राह्मणने कहा—‘कल्याणी! मुझे तुमसे ही काम है, यदि गृहस्थ-धर्मको मान्य समझती हो तो अपना शरीर दान करके मेरा प्रिय कार्य करो।’ राजकन्याने दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु माँगनेके लिये ब्राह्मणसे बहुत अनुरोध किया, किन्तु उसने

उसके शरीरके सिवा और कोई वस्तु नहीं मांगी। तब उसे अपने स्वामीकी आज्ञाका स्मरण हो आया और उसने लजाते-लजाते ‘हाँ’ कहकर उस ब्राह्मणका कथन स्वीकार कर लिया। तदनन्तर, ब्राह्मणने मुसकराकर ओघवतीके साथ घरके भीतर प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद अग्निपुत्र सुदर्शन समिधा लेकर लौटा और आश्रमके द्वारपर पहुँचकर अपनी पत्नीको पुकारने लगा। वह बारंबार पूछता, ‘देवि! तुम कहाँ चली गयीं?’ किन्तु वह राजकन्या अपने स्वामीकी कोई उत्तर नहीं देती थी। अतिथिरूपमें आये हुए ब्राह्मणने दोनों हाथोंसे उसका स्पर्श किया था, इससे वह अपनेको दूषित मान रही थी। अतः स्वामीसे लज्जित होकर वह चुप रह गयी, कुछ भी बोल न सकी। तब सुदर्शन फिर पुकार-पुकारकर कहने लगा—‘मेरी साध्वी स्त्री कहाँ है? वह कहाँ चली गयी? मेरी सेवासे बढ़कर कौन-सा गुस्तर कार्य उसपर आ पड़ा? सदा सरल भावसे रहने और सत्य बोलनेवाली मेरी पतिव्रता पत्नी आज पहलेकी तरह मुसकराती हुई आगे आकर मेरा स्वागत क्यों नहीं करती?’

यह सुनकर आश्रमके भीतर बंठे हुए ब्राह्मणने जवाब दिया—‘अग्निकुमार! तुम्हें मालूम होना चाहिये कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमें आया हूँ। तुम्हारी स्त्रीने अतिथि-सत्कारके द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया है, तब मैंने इसे ही वरण किया है। इसीके अनुसार यह सुमुखी मेरी सेवामें उपस्थित हुई है, अतः अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो।’ परन्तु सुदर्शन मन, वाणी, नेत्र और क्रियासे भी ईर्ष्या और क्रोधका त्याग कर चुके थे। वे हँसते-हँसते बोले—‘विप्रवर! आप अपनी इच्छा पूर्ण कीजिये, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है; क्योंकि घरपर आये हुए अतिथिका पूजन करना गृहस्थके लिये सबसे बड़ा धर्म है। जिस गृहस्थके घरपर आया हुआ अतिथि पूजित होकर जाता है, उसके लिये उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बताया गया है। मेरे प्राण, मेरी स्त्री तथा मेरे पास जो कुछ धन-बौलत है, वह सब अतिथिके लिये निछावर है—ऐसा मैंने व्रत ले रखा है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, बुद्धि, आत्मा, मन, काल और दिशाएँ—ये दस देवता प्राणियोंके शरीरमें रहकर सदा ही उनके पाप-पुण्यपर दृष्टि रखते हैं।’

सुदर्शनके इतना कहते ही चारों दिशाओंसे आवाज आयी—‘तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें झूठका लेश भी नहीं है।’ तत्पश्चात् वह ब्राह्मण आश्रमसे बाहर निकला और शिक्षाके अनुकूल स्वरसे तीनों लोकोंको प्रतिष्णित करता हुआ धर्मात्मा सुदर्शनको सम्बोधित करके बोला—‘अग्निकुमार!



तुम्हारा कल्याण हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारे सत्यकी परीक्षा लेनेके लिये यहाँ आया था। तुममें सत्य है, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने इस मृत्युको, जो सदा तुम्हारा छिद्र दूँवती हुई पीछे लगी रहती थी, जीत लिया। तुम्हारे धर्मसे पराजित होकर मृत्यु तुम्हारे अधीन हो गयी है। नरभेष्ट! तुम्हारी स्त्री बड़ी पतिव्रता और साध्वी है, तीनों लोकोंके भीतर किसी भी पुरुषमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह इसकी ओर आँख उठाकर देख भी सके। यह अपने पातिव्रत्यके द्वारा तथा तुम्हारे गुणोंसे सदा सुरक्षित है। कोई भी इसका पराभव नहीं कर सकता। यह जो भी बात अपने

मूँहसे निकालेगी, वह सत्य ही होगी, मिथ्या नहीं हो सकती। अपने तपोव्रतसे युक्त यह ब्रह्मवादिनी स्त्री संसारकी पवित्र करनेके लिये अपने आद्य शरीरसे ओषधती नामक धेनु नदी होगी और आद्य शरीरसे तुम्हारी सेवा करती रहेगी। तुम भी इसके साथ अपनी तपस्यासे प्राप्त हुए उन सनातन लोकोंमें गमन करोगे, जहाँसि फिर इस संसारमें सौटना नहीं पड़ता। तुमने मृत्युको जीत लिया है, इसलिये तुम इसी देहसे उन सनातन लोकोंमें जाओगे। अपने पचासमसे पञ्चमृतोंको साथकर तुम मनके समान वेगवान् हो गये हो। इस गृहस्थ-धर्मके ही आचरणसे तुमने काम और क्रोधपर विजय पा ली है तथा इस राजकुमारीने भी तुम्हारी सेवासे आसक्ति, राग, आलस्य, मोह और द्रोह आदि दोषोंको जीत लिया है।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! तदनन्तर, देवराज इंद्र भी उत्तम रूप लेकर सुवर्णसे मिलने आये। इस प्रकार उसने (अतिथि-सत्कारसे) मृत्यु, आत्मा, लोक, पञ्चमृत, बुद्धि, काल, मन, आकाश, काम और श्रेयको भी जीत लिया। इसलिये तुम अपने मनमें यह निश्चय समझो कि गृहस्थ पुरुषके लिये अतिथिसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि अतिथि पूजित होकर मन-ही-मन गृहस्थके कल्याणका चिन्तन करे तो उससे जो फल मिलता है, उसकी सी यशोंसे भी सुलना नहीं हो सकती, ऐसा मनोपी विद्वानोंका कथन है। जो गृहस्थ सुपात्र और सुशील अतिथिसे आनेपर उसका सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उस गृहस्थको अपना पाप बे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। बेटा! तुम्हारे प्ररनके अनुसार पूर्वकालमें एक गृहस्थने जिस प्रकार मृत्युपर विजय पायी थी, वह उत्तम उपाख्यान मैंने तुमसे कहा। जो विद्वान् प्रतिदिन सुवर्णके इस धरित्रको कहकर सुनाता है, वह पुण्यलोकोंसे प्राप्त होता है। (ये असाधारण पुरुषोंके धरित्र हैं, साधारण मनुष्योंको इनका अनुकरण नहीं करना चाहिये।)

विश्वामित्रके जन्मकी कथा और उनके पुत्रोंके नाम


युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! यदि तीनों वर्णके मनुष्योंके लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है तो महारामा विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण कैसे हो गये? मैं इस बातको यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ। आप बताने की कृपा करें।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! पूर्वकालमें विश्वामित्रजी क्षत्रिय होकर भी जिस प्रकार ब्राह्मण तथा ब्रह्मर्षि हुए, उस प्रसंगको तुम यथार्थरूपसे सुनो। भरतवंशमें एक

अजमीद नामक राजा हुए थे, उनके पुत्र महाराज जह्नु थे, जिन्होंने पद्माजीको अपनी पुत्री बनाया था। जह्नुका पुत्र सिन्धुद्वीप और सिन्धुद्वीपका पुत्र बलाकारव था, उससे धत्सभका जन्म हुआ, जो साक्षात् द्वितीय धर्मके समान था। उसके इन्द्रके समान कान्तमरान् एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुशिक था। कुशिकके पुत्र महाराज गार्धि हुए। उनके बेटों पुत्र नहीं था, इसलिये वे संतानकी इच्छासे वनमें एक यशानुष्ठान करने लगे। वहाँ यज्ञसे उन्हें एक कन्या

हुई, जो इस पृथ्वीपर अनुपम सुन्दरी थी। उस समय च्यवनके पुत्र विख्यात तपस्वी ऋचीक मुनिने राजासे उस कन्याके लिये याचना की। तब राजा गाधिने कहा—‘भृगुनन्दन! आप मुझे शुल्करूपमें एक हजार ऐसे घोड़े ला दीजिये, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान् और वायुके समान वेगवान् हों तथा जिनके एक कान श्याम रंगके हों।’

यह सुनकर च्यवनपुत्र ऋचीक मुनिने जलके स्वामी अश्विनन्दन वरुणके पास जाकर कहा—‘दिवश्रेष्ठ! मैं आपसे श्यामरंगके एक कानवाले, चन्द्रमाके समान कान्तिमान् तथा वायुके समान वेगवान् एक हजार घोड़ोंकी भिक्षा मांगता हूँ।’ वरुणने कहा—‘बहुत अच्छा, आपकी जहाँ इच्छा होगी, वहीं इस तरहके घोड़े प्रकट हो जायेंगे।’ तत्पश्चात् ऋचीकने एक स्थानपर आकर घोड़ोंके लिये चिन्तन किया। उनके चिन्तन करते ही चन्द्रमाके समान कान्तिमान् एक हजार तेजस्वी घोड़े गङ्गाके जलसे प्रकट हो गये। गङ्गाका वह



उत्तम तट कप्तोजके पास ही है। यह स्थान आज भी लोगोंमें अश्वतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। तदनन्तर, ऋचीकने प्रसन्न होकर वे घोड़े राजा गाधिको कन्याके शुल्करूपमें अर्पण कर दिये। यह देकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने शापके भयसे अपनी कन्याको वस्त्र और आभूषणोंसे अलंकृत करके उसका ऋचीकमुनिके साथ ब्याह कर दिया। ब्रह्मर्षिने

उस कन्याका विधिवत् पाणिग्रहण किया तथा वह कन्या भी उन्हें पतिरूपमें पाकर बहुत प्रसन्न हुई। सत्यवतीके बर्तावसे ऋचीकमुनिको बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने उसे बरवान देनेकी इच्छा प्रकट की। राजकन्याने वह सारा समाचार अपनी मातासे कहा। यह सुनकर उसकी माता बोली—‘बेटी! तुम्हारे पतिको मुझपर भी कृपा करनी चाहिये। उनसे कहो, वे मुझे भी पुत्र प्रदान करें; क्योंकि उनकी तपस्या बहुत बड़ी है। वे सब कुछ करनेमें समर्थ हैं।’ माताकी आज्ञा पाकर सत्यवती तुरंत पतिके पास गयी और उसकी कही हुई बात उसने उनसे निवेदन कर दी। उसकी माताका अभिप्राय जानकर ऋचीकने सत्यवतीसे कहा—‘प्रिये! मेरी कृपासे तुम्हारी माताको भी शीघ्र ही एक गुणवान् पुत्रकी प्राप्ति होगी, तुम्हारा प्रेमपूर्ण अनुरोध निष्फल नहीं जायगा, तुम्हारे गर्भसे भी एक गुणवान् पुत्र उत्पन्न होगा, जिससे हमारी वंश-परम्परा चलेगी। तुम्हारी माता ऋतुस्नानके पश्चात् पीपलके वृक्षका आलिङ्गन करे और तुम गूलरके वृक्षका, इससे तुम दोनोंको पुत्रकी प्राप्ति होगी। तुमलोगोंके लिये मैंने ये दो मन्त्रपूत चर तैयार किये हैं, इनमेंसे एक तो तुम खा लेना और दूसरा अपनी माँको खिला देना। ऐसा करनेसे तुम दोनोंके पुत्र होंगे।’ यह सुनकर सत्यवतीको बड़ा हर्ष हुआ। उसने ऋचीक मुनिकी कही हुई सारी बातें अपनी माताको सुना दीं और उन दोनों चरोंकी भी चर्चा की। तब उसकी माताने कहा—‘बेटी! तुम्हारे स्वामीने मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके जो चर तुम्हारे लिये दिया है, वह तो मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो। इसी प्रकार हमलोग वृक्षोंमें भी अदल-बदल कर लें। मैं तुम्हारी माँ हूँ, यदि मेरी बात माननेके योग्य समझो तो ऐसा ही करो।’

इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों माँ-बेटीने ऐसा ही किया और उन दोनोंके गर्भ रह गया। महर्षि ऋचीकने जब गर्भवती सत्यवतीकी ओर दृष्टिपात किया तो उनके मनमें बड़ा खेद हुआ और वे उससे कहने लगे—‘शुभे! जान पड़ता है तुमलोगोंने चर और वृक्षोंको बदलकर उनका उपयोग किया है। मैंने तुम्हारे चरमें सम्पूर्ण ब्रह्मतेजका संनिवेश किया था और तुम्हारी माताके चरमें समस्त क्षत्रियोचित शक्तिकी स्थापना की थी। मैंने यह सोचा था कि तुम्हारे गर्भसे त्रिभुवनमें विख्यात गुणोंवाला ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा और तुम्हारी माँ एक विशिष्ट क्षत्रियकी जन्म देगी; किंतु तुमलोगोंकी अदल-बदलीके कारण तुम्हारी माताके गर्भसे तो उत्तम ब्राह्मण उत्पन्न होगा और तुम कठोर कर्म करनेवाले क्षत्रियकी जन्म दोगी। माताके स्नेहमें पड़कर तुमने यह अच्छा काम नहीं किया।’ पतिकी बात सुनकर सत्यवती शोकसे

संतप्त होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। थोड़ी देरमें जब उसे चेत हुआ तो वह स्वामीके चरणोंमें सिर रखकर बोली—'ब्रह्मर्षे ! मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ, मुझपर कृपा कीजिये। मेरा पुत्र सत्रिय न हो। मेरे पुत्रका पुत्र भले ही कठोर कर्म करनेवाला हो जाय, परंतु मेरा पुत्र ऐसा न हो, मुझे यही बर दीजिये।' तब उन महातपस्वीने अपनी भायसि कहा—'अच्छा, ऐसा ही हो।'

तदनन्तर, सत्यवतीने जमदग्निनामक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया और राजा गांधिकी यशस्विनी पत्नीने श्चोचक भूमिकी कृपासे ब्रह्मवादी विरवामित्तकी जन्म दिया। इसीसे महातपस्वी विरवामित्त ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए और क्षत्रिय होकर भी उन्होंने ब्राह्मणवंशकी परम्परा चलायी। उनके पुत्र बड़े तपस्वी, ब्रह्मवेत्ता, ब्राह्मणवंशकी बढ़ानेवाले और गोत्रके प्रवर्तक थे। मधुच्छन्दा, देवरात, अश्रीण, शत्रुन्त,

बधु, कालपय, यातवल्स्य, स्यूण, जलूक, यमदूत, सिंघवामन, यल्लुजङ्ग, गालव, वस्त्र, सालंकायन, सीतावप, नारद, कूर्वामुख, वाहुलि, मूसल, यशोभ्रीव, आइप्रिक, शितायूप, शित, श्रुचि, चक्रक, मादतन्तव्य, यातपन, भारवतायन, श्यामामन, गार्ग्य, जावालि, मुधुत, कारीयि, संभ्रय, पर, पौरव, तन्तु, कपिल, ताडकायन, उपगहन, आगुरायण, मार्दमयि, हिरम्याल, जङ्गारि, बाछवायण, भृति, विभृति, धृत, मुरदूत, अरालि, भाषिक, धाम्येय, उज्जयन, नवतन्तु, यकनल, सेयन, यति, अम्भोरह, चारुमत्स्य, शिरीषी, गार्दभि, ऊर्जयोनि, उशपेदी और नारदी—ये सब श्रुचि विरवामित्तके पुत्र थे तथा विरवामित्तकी पृथपि क्षत्रिय थे तथापि श्चोचक भूमिने उनमें ब्रह्मतेजका आधान किया था। युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैंने तुमसे सोम, सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी विरवामित्तकी जन्मकी कृपा धर्यापदपसे बतलायी है।

स्वामिभक्त एवं दयालु पुरुषकी श्रेष्ठता बतलाते हुए इन्द्र और तोतेके संवादका उल्लेख

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! अब मैं दयालु और भक्त पुरुषोके गुणोंका वर्णन सुनना चाहता हूँ, कृपा करके बतलाइये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें भी तोतेके साथ इन्द्रका जो संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास बतला रहा है, सुनो—काशिराजके राज्यकी बात है, एक व्याघ्रा विषमें बुझाया हुआ बाण लेकर गाँवसे निकला और इधर-उधर मृगोंको ढूँढ़ने लगा। एक घने जंगलमें जानेपर उसे थोड़ी ही दूरपर कुछ मृग दिखायी पड़े। उसने उन मृगोंको सशय करके बाण चलाया; किंतु निशाना चूक जानेसे वह बाण एक महान् वृक्षमें धँस गया और उसका तीक्ष्ण विष सारे वृक्षमें फैल गया, इससे उसके फल और पत्ते ऋड़ गये और वह वृक्ष धीरे-धीरे सूखने लगा। उसके खोललेमें बहुत दिनोंसे एक तोता निवास करता था। उसका उस वृक्षके साथ बड़ा प्रेम था, इसलिये वह उसके सूखनेपर भी उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया और चारा चुगना भी छोड़ दिया; अतः अब उससे बोलातक नहीं जाता था। इस प्रकार वह धर्मलता गुरु कृतमतावश उस वृक्षके साथ अपने शरीरकी भी सुलाने लगा। उसकी उदारता, धैर्य, अलौकिक चेष्टा और दुःख-सुखमें समान धृति देखकर इन्द्रको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने यह सोचकर मनकी समझाया कि 'इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है; क्योंकि सब जगह सब प्राणियोंमें सब



तरहकी बातें देखनेमें आती हैं।' तदनन्तर, इन्द्र पृथ्वीपर उतरे और ब्राह्मणका रूप धारण करके उस पक्षीसे बोले—'पक्षियोंमें श्रेष्ठ गुरु ! मैं एक बात पूछता हूँ, तुम इस वृक्षको छोड़ क्यों नहीं देते ?' इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर तोतेने

मस्तक भुजाकर प्रणाम किया और कहा—'देवराज ! आपका स्वागत है। मैंने अपने तपोबलसे आपको पहचान लिया है।' उसकी बात सुनकर इन्द्रने सन-ही-मन कहा—'याह, क्या अद्भुत विज्ञान है ! फिर उन्होंने वृक्षके प्रति उसके प्रेमका कारण पूछते हुए कहा—'शुक ! इस वृक्षपर न पत्ते हैं, न फल और न अब इसके ऊपर कोई पक्षी ही रहता है। जब इतना बड़ा जंगल पड़ा हुआ है, तो तुम इस सूखे वृक्षपर किसलिये रहते हो ? यहाँ और भी तो बहुतसे वृक्ष हैं, जिनके खोलने पत्तोंसे ढके हुए हैं, जो देखनेमें सुन्दर—हरे-भरे हैं तथा जिनके ऊपर खानेके लिये काफी फल-फूल मौजूब हैं। इस वृक्षकी आयु समाप्त हो गयी है, अब इसमें फलने-फूलनेकी शक्ति नहीं रही तथा यह निःसार और श्रीहीन हो चला है। अतः अपनी बुद्धिसे सोच-विचारकर इस ठूठे पेड़को तुम त्याग दो !'

भीष्मजी कहते हैं—धर्मात्मा शुकने इन्द्रकी बात सुनकर लंबो साँस छोड़ते हुए दीन वाणीमें कहा—'देवराज ! मैंने इसी वृक्षपर जन्म लिया और यहाँ रहकर अच्छे-अच्छे गुण सीखे हैं। इसने अपने बालकके समान मेरी रक्षा की और शत्रुओंके आक्रमणसे बचाया है, इसलिये इस वृक्षपर मेरी बड़ी भक्ति है। मैं इसे छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता, यद्यपि धर्मका पालन कर रहा हूँ। ऐसी दशामें आप कृपा करके यह व्यर्थ सलाह क्यों दे रहे हैं ? साधु पुरुषोंके लिये दूसरोंपर दया करना ही सबसे महान् धर्म बतलाया गया है। सहस्राक्ष ! जब देवताओंको धर्मके विषयमें संदेह होता है तो वे उसका समाधान आपसे ही पूछते हैं; इसीलिये आपको देवताओंका राजा बनाया गया है, अतः आप मुझे इस वृक्षको त्यागनेके लिये न कहिये; क्योंकि जब यह हर तरहसे समर्थ था, उस समय तो मैंने इसीके सहारे जीवन धारण किया और आज जब यह शक्तिहीन हो गया तो इसे छोड़कर चल दूँ, यह कैसे हो सकता है ?'

तोतेकी फोमल वाणी सुनकर इन्द्रकी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसकी वयानुतासे संतुष्ट होकर कहा—'तुम मुझसे

कोई वर मांगो।' तब शुकने कहा—'यह वृक्ष पहलेहीकी तरह हुरा-भरा हो जाय।' उसकी भक्ति और शील-स्वभाव देखकर इन्द्रकी और भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत ही अमृतकी वर्षा करके उस वृक्षको सींच दिया। फिर तो उसमें नये-नये पत्ते, फल और मनोहर शाखाएँ निकल आयीं। तोतेकी सुदृढ़ भक्तिके कारण यह वृक्ष पूर्ववत् शोसम्पन्न हो गया तथा यह शुक भी आयु समाप्त होनेपर अपने दयापूर्ण बर्तावके कारण इन्द्रलोकको प्राप्त हुआ। राजन् ! जैसे शुकका सहवास पाकर वृक्षको अपनी खोयी हुई शक्ति प्राप्त



हो गयी, उसी प्रकार अपनेमें भक्ति रखनेवाले पुरुषका सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध कर लेता है।

भाग्यकी अपेक्षा पुरुषार्थकी श्रेष्ठता

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! दैव (भाग्य) और पुरुषार्थमें कौन श्रेष्ठ है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें बसिष्ठ और ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। पूर्वकालमें महर्षि बसिष्ठजीने लोफपितामह

ब्रह्माजीसे पूछा—'भगवन् ! प्रारब्ध और मनुष्यके प्रयत्नमें किसकी श्रेष्ठता है ?'

ब्रह्माजीने कहा—'बिना बीजके कोई चीज पैदा नहीं होती। बीजसे ही बीज पैदा होता और बीजसे ही फल उत्पन्न होता है। किसान खेतमें जाकर जंसा बीज बो आता

है, उसीके अनुसार उसको फल मिलता है। इसी प्रकार पुण्य या पाप जैसा कर्म किया जाता है वंसा ही फल प्राप्त होता है। जैसे बीज खेतमें बोये बिना फल नहीं दे सकता उसी प्रकार प्रारब्ध भी पुण्यापेके बिना काम नहीं देता। कर्म करनेवाला मनुष्य अपने भले या बुरे कर्मका फल स्वयं ही भोगता है, यह बात संसारमें प्रत्यक्ष दिखायी देती है। गुण कर्म करनेसे सुख और पाप करनेसे दुःख मिलता है। पुण्यापे मनुष्य सर्वत्र सम्मान पाता है; किंतु जो निकम्मा है, वह घावपर नमक छिड़कनेके समान असाह्य दुःख भोगता है। मनुष्य तपस्यासे स्वयं, सौम्याय और नाना प्रकारके रत्न प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कर्मसे सब कुछ मिल सकता है, परंतु माण्यके भरोसे बैठे रहनेवाले निकम्मेको उससे कुछ नहीं मिलता। इस जगत्में पुण्यापे करनेसे स्वर्ग, भोग, प्रतिष्ठा और विद्वत्ता—इन सबकी उपलब्धि होती है। नक्षत्र, नाग, यक्ष, चन्द्रमा, सूर्य और वायु आदि देवता पुण्यापे करके ही मनुष्यलोके देवलोके गये हैं। जो लोग उद्योग नहीं करते उन्हें धन, मित्र, ऐश्वर्य अथवा बुलंग लक्ष्मीकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती। कंजूस, नपुंसक, उद्योगहीन, कामसे जो चुरानेवाले तथा शीर्ष एवं तपस्यासे हीन पुण्यकी धन नहीं मिलता। जो पुण्यापे न करके केवल बँबके भरोसे बँठा रहता है, वह नपुंसकको पति बनानेवाली स्त्रीकी तरह ध्यर्ष ही दुःख उठाता है। पुण्यापे करनेपर मनुष्यको बँबके अनुसार फल मिल जाता है; किंतु चुपचाप बैठे रहनेपर बँब किसीको कोई फल नहीं दे सकता। देवता भी अपनी परा-

जयकी आराधनासे प्रायः मनुष्यके पारमार्थिक कार्योंमें भयंकर विघ्न डाला करते हैं; किंतु पुण्यात्मा पुण्यका ये क्या बिगाड़ सकते हैं? पूर्वकालमें राजा यथाति बँबवशा स्वर्गसे छूट गये तो भी उनके नातिथिने अपने पुण्यकर्मसे पुनः उन्हें स्वर्गमें पहुँचा दिया। इसी तरह इसलके पुत्र राजर्षि सुह्रवा भी ब्राह्मणोंके प्रयत्नसे स्वर्गको प्राप्त हुए। जैसे आगकी एक चिनगारी भी हवाके सहारेसे प्रवृत्त होकर महान् रूप धारण करती है, उसी प्रकार बँब भी पुण्यापेकी सहायतासे बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार तेल समाप्त हो जानेपर बीपक धुन जाता है, उसी प्रकार कर्मके नाश होनेसे बँब भी नष्ट हो जाता है। निकम्मा मनुष्य बहुत बड़े धनका भण्डार, तरह-तरहके भोग और तिर्रियोंको भाकर भी उनका उपयोग नहीं कर सकता। जो धन करनेके कारण नियंत्रण हो गया है, ऐसे सत्युपपे पास उसके सत्कर्मके कारण देवता भी पहुँचते हैं; अतः उसका धर मनुष्यलोककी अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोका-सा बन जाता है। किंतु जहाँ धन नहीं होता, वे धर यदि अनन्त समृद्धिसे भरे हों तो भी देवताओंकी दृष्टिमें समानके तुल्य हैं। जगत्में उद्योगहीन मनुष्य फूलता-फसता नहीं दिखायी देता। बँबमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह कुमार्गमें पड़े हुए पुण्यको सम्मार्गपर पहुँचा वे। जैसे शिष्य गुरुको आगे करके चलता है, उसी तरह बँब पुण्यापेका ही अनुसरण करता है। संचित किया हुआ पुण्यापे ही बँबको जहाँ चाहता है, ले जाता है। कतिपयोंकी मीने सदा पुण्यापेके फलको देखकर ही ये सारी बातें बतानी हैं।

कर्माँके फलका वर्णन तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी प्रशंसा

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! अब सम्पूर्ण शुभ कर्माँके फलोंका वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—भारत! तुम जो कुछ पूछ रहे हो, यह श्रुतियोंके लिये भी रहस्यका विषय है, किंतु तुम्हें बतला रहा हूँ, सुनो। मरनेके बाद जिस पुण्यको जैसी गति मिलती है, उसका भी वर्णन करता हूँ। मनुष्य जिस अवस्थामें जो शुभ या अशुभ कर्म करता है दूसरा जन्म धारण करनेपर उसी अवस्थामें उस कर्मका फल भोगता है। पाँचों इन्द्रियोंसे किये जानेवाले कर्मका कभी नाश नहीं होता, इसलिये मनुष्यको उचित है कि यदि कोई अतिथि धरपर आ जाय तो उसको प्रसन्न दृष्टिसे देखे, उसकी सेवामें मन लगाये, भीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे, जब वह जाने लगे तो उसके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय और जबतक वह रहे, उसके स्वागत-सत्कारमें लगा रहे—यह पाँच काम करना गृहस्थके

लिमें पञ्चदशिन यज्ञ कहलाता है। जो यके-मदि अपरिचित पथिकको प्रसन्नतापूर्वक अन्न दान करता है, उसे महान् पुण्य-फलकी प्राप्ति होती है। जो अतिथिकी पुगाके लिये आसन, पेंद्र घोनेको जल, बीपक, अन्न और ठहरनेको स्थान देता है, उसका भी वह अतिथि-सत्कार पञ्चदशिन यज्ञ कहलाता है।

जो लोग कोई व्रत धारण करके चयूतरेपर सोते हैं, उन्हें दूसरे जन्ममें उत्तम धर और शय्या आदिकी प्राप्ति होती है। नियमपूर्वक चोर और बल्कल धारण करनेवालोंको वस्त्र तथा आभूषण प्राप्त होते हैं। योग और तपस्यामें प्रवृत्त रहने-वालोंको उत्तम-उत्तम वाहनोंकी प्राप्ति होती है। अनिकी उपासना करनेवाले राजाकी शक्ति बढ़ती है। जो अपना तिर नीचे करके सत्करता है, पानीमें लडा रहता है तथा सदा बनेने शयन करता है, उसे मनोवाञ्छित गति प्राप्त होती है। रणमयिमें जाकर बौर-शय्या (मृत्यु) को प्राप्त हो

होता है, उसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है। वानसे घन मिलता है, मौनव्रतका अवलम्बन करनेसे दूसरोंके द्वारा जाना पालन करानेकी शक्ति (वाक्सिद्धि) प्राप्त होती है। तपस्यासे भोग-सामग्री मिलती है और ब्रह्मचर्यके पालनसे आयु बढ़ती है। अहिंसा-धर्मके आचरणसे रूप, ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त होते हैं। फल, मूल खानेवालेको राज्य और पत्ते चवाकर रहनेवालोंको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। उपवास करनेवाले मनुष्यको सर्वत्र सुख मिलता है। शाकाहारीको गोधन और तृण भक्षण करनेवालेको स्वर्गकी उपलब्धि होती है। जो ब्राह्मण सदा जल पीकर रहता, अग्निहोत्र करता और मन्त्र-साधनामें संलग्न रहता है, उसे राज्य मिलता है। निराहार व्रत करनेवाला स्वर्गलोकमें जाता है। जो पुष्य वारह वर्षोंतकके लिये व्रतकी दोषा लेकर अन्नका त्याग करता और तीर्थमें स्नान करता रहता है, उसे रणभूमिमें प्राण त्यागनेवाले वीरसे भी बढ़कर उत्तम लोककी प्राप्ति होती है। जो सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करता है, वह तत्काल दुःखसे छूट जाता है तथा जो मानसिक धर्मका आचरण करता है, उसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। जैसे बछड़ा हजारों गौओंके बीचमें भी अपनी माताको ढूँढ लेता है, इसी तरह पहलेका किया हुआ कर्म कर्ताको पहचानकर उत्तका अनुसरण करता है। जिस प्रकार फूल और फल किसीकी प्रेरणा न होनेपर भी अपने समयपर फूलने-फलने लगते हैं, वैसे ही पूर्वजन्मका किया हुआ कर्म भी समयपर फल देता ही है। मनुष्यके जीर्ण (जराप्रस्त) होनेपर उसके केश, दाँत, आँख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, केवल तृष्णा नहीं जीर्ण होती। मनुष्य जिस कार्यसे पिताको प्रसन्न करता है, उससे प्रजापति भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस कर्मसे माताको संतुष्ट करता है, उससे पृथ्वीको भी पूजा हो जाती है तथा जिससे वह उपाध्यायको तृप्त करता है, उसके द्वारा ब्रह्मकी पूजा सम्पन्न हो जाती है। जिसने इन तीनोंका आदर किया उसके द्वारा मानो सम्पूर्ण धर्मोंका आदर हो गया और जिसने इनका अनादर किया उसको सम्पूर्ण पञ्चादिक क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार शुभाशुभ फल-प्राप्तिके सम्बन्धमें मुनिवर व्यासजीने जो कुछ बतलाया था, वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो ?

युधिष्ठिरने पृष्टा—पितामह ! जगत्में पूजनीय कौन है ? आप किनको नमस्कार करते हैं ? किनकी स्पृहा (चाह) रखते हैं ? बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर आप किनको स्मरण करते हैं ? तथा इस लोक और परलोकमें हितकारक कार्य क्या है ? ये सारी बातें मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! जिनके कुलमें वञ्चते

लेकर बूढ़तक परम्परागत धार्मिक कार्यका भार सँभालते और उत्तक-लिये मनमें कभी दुःख नहीं मानते, ऐसे ही लोगोंकी मैं स्पृहा करता हूँ। जो विनीतभावसे विद्याध्ययन करते, इन्द्रियोंका संयम रखते और मीठी-मीठी बातें करते हैं; जो शास्त्रके विद्वान्, सदाचारी, अक्षर-सत्त्वके ज्ञाता और सत्यरुष हैं, उनके मुँहसे मेघके समान गम्भीर और कल्याणमयी मनोहर वाणी सुनायी देती है। यदि राजा उन महात्माओंकी बातें सुने तो वे उसे इहलोक और परलोकमें भी सुख पहुँचानेवाली होती हैं। जो प्रतिदिन उनके वचनोंको श्रवण करते हैं, वे विज्ञानगुणसे सम्पन्न होते हैं। ऐसे साधु पुरुषों तथा उनके श्रोताओंकी मुझे सदा चाह बनी रहती है। जो लोग पवित्र भावसे ब्राह्मणोंकी तृप्तिके लिये उन्हें अच्छे ढंगसे बनाये हुए शुद्ध और स्वादिष्ट अन्न परोसते हैं, वे भी मेरे बड़े प्रिय हैं। बेटा ! कुलीन, धर्मात्मा, तपस्वी और विद्वान् ब्राह्मण होनेकी बात कौन कहे, यदि मैं साधारण ब्राह्मण भी होता तो अपनेको धन्य समझता। इस संसारमें तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है, किंतु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं। और तो क्या, अपने पिता, पितामह और सुहृदोंको भी मैंने कभी ब्राह्मणोंसे अधिक प्रिय नहीं समझा। मेरे द्वारा ब्राह्मणोंका कभी किञ्चित् भी अपकार नहीं होता। मैंने मन, वाणी और कर्मसे ब्राह्मणोंका जो थोड़ा-बहुत उपकार किया है, उसीके प्रभावसे आज बाणशय्यापर पड़े रहनेपर भी मुझे पीड़ा नहीं होती। लोग मुझे ब्राह्मणोंका भक्त कहते हैं, इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। ब्राह्मणोंकी सेवा ही सबसे बढ़कर पवित्र कार्य है। ब्राह्मणकी सेवामें रहनेवाले पुरुषको जिन निर्मल और पवित्र लोकोंकी प्राप्ति होती है, उन्हें मैं यहाँसे देख रहा हूँ। अब शीघ्र ही मुझे भी अन्तकाल-तकके लिये उन्हीं लोकोंमें जाना है।

युधिष्ठिर ! जैसे स्त्रियोंके लिये पतिकी सेवा ही संसारमें सबसे बड़ा धर्म है, पति ही उनका देवता तथा वही परमगति माना गया है, उसी प्रकार क्षत्रियोंके लिये ब्राह्मणकी सेवा ही परम धर्म तथा ब्राह्मण ही देवता और परमगति है। क्षत्रिय सौ वर्षकी अवस्थाका और ब्राह्मण दस वर्षकी उम्रका हो तो भी उन दोनोंको परस्पर पुत्र और पिताके समान समझना चाहिये। उनमें ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय पुत्र। अतः ब्राह्मणोंकी पुत्रके समान रक्षा, गुरुकी भाँति उपासना तथा अग्निकी भाँति परिचर्या करनी चाहिये। सरल, सत्यवादी और समस्त प्राणियोंके हितमें लगे रहनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी सदा ही सेवा करनी चाहिये। युधिष्ठिर ! तुम्हें हमेशा इस बातकी ओर दृष्टि रखनी चाहिये कि ब्राह्मणके धर्ममें जीवनविकासके लिये

गौड़ और वानरकी कथा—ब्राह्मणकी प्रतिज्ञा करके न देने और उसका धन लेनेसे दोष

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! जो लोग ब्राह्मणोंको दान देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर मोहेंस नहीं देते, उनकी क्या गति होती है ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! जो देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देता, वह जीवनभर जो कुछ होम, दान तथा तप आदि पुण्य कर्म करता है, वह सब नष्ट हो जाता है। धर्मशास्त्रके विद्वानोंका कहना है कि एक हजार श्यामकर्म घोड़ोंका दान करनेपर प्रतिश्रामङ्गके पापसे छूटकारा मिलता है। इस विषयमें सियार और वानरके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका दृष्टान्त दिया जाता है। पूर्वकालकी बात है, एक सियार और वानर एक स्थानपर मिले। ये दोनों पूर्वजन्ममें मनुष्य और परस्पर मित्र थे। दूसरी योनिमें इन्हें सियार और वानरकी योनिमें जन्म लेना पड़ा था। सियारको

मरणमें मुझे साता देस दानरने पूर्वजन्मका स्मरण करके पूछा—'मैया ! तुमने पूर्वजन्ममें कौन-सा भयंकर पाप किया था, जिसके कारण तुम्हें मरणमें घृणाके योग्य सड़ा हुआ मुर्दा खाना पड़ता है ?' सियारने जवाब दिया—'मैंने ब्राह्मणकी दान देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं दिया; इसी पापके कारण मुझे इस पापयोनिमें जन्म लेना पड़ा है। अच्छा, अब तुम बताओ; तुमने ऐसा क्या पाप किया, जिससे वानर हो गये ?' वानर बोला—'मैं सदा ब्राह्मणोंका फल चुराकर खा जाया करता था, इसी पापसे वानर हुआ। अतः विश्व पुत्रको कमी ब्राह्मणका धन नहीं लेना चाहिये, उनके साथ रूपी विवाह नहीं करना चाहिये और यदि उन्हें दान देनेकी प्रतिज्ञा की गयी हो तो अवश्य वे बालना चाहिये।'

भीष्मजीने कहते हैं—युधिष्ठिर ! इसलिये किसीको ब्राह्मणके धनका अपहरण नहीं करना चाहिये। यदि ब्राह्मणसे कोई अपराध भी हो जाय तो उसे क्षमा कर देना चाहिये। बालक, बरिष्ठ धर्मवादी ही होनेपर भी किसी ब्राह्मणका अपमान नहीं करना चाहिये। पहले तो उन्हें किसी बातकी आशा नहीं देनी चाहिये और यदि वे ही तो पूरे करनी चाहिये; क्योंकि पहलेकी ही हुई आशाके मङ्ग होनेपर ब्राह्मण क्रोधमें भरकर जिसकी ओर बैलता है उसे उसी प्रकार मत्स्य कर बालता है, जैसे घास-फूसको आग। किंतु वही ब्राह्मण जब आशा-पूर्तिसे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देता है तो वह बातके लिये औषधके समान हो जाता है तथा उसके पुत्र-पौत्र, बन्धु-बाण्डव, पण्ड, मन्वी, नगर और देशका कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाता है। इस पुष्पीपर सहस्रों किरणोंवाले सूर्यदेवके प्रचण्ड तेजकी भाँति ब्राह्मणका तेज भी देसनेमें आता है। इसलिये जो उत्तम योनिमें जन्म लेना चाहता हो, उसे ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा की हुई दस्तु अवश्य वे डासनी चाहिये। इस लोकमें ब्राह्मणकी दान देनेसे बैलता और पितर वृत्त होते हैं; इसलिये विद्वान् पुत्र्य ब्राह्मणोंको अवश्य दान दें। ब्राह्मण महान् शौर्य माने जाते हैं। वे किसी भी समय घरपर आ जायें तो बिना सत्कार किये उन्हें नहीं जाने देना चाहिये।



शूद्रको विशेष उपदेश देनेसे अनर्थकी प्राप्ति—एक शूद्र और मुनिकी कथा

युधिष्ठिरने पूछा—बाबाजी ! यदि कोई मनुष्य सौहार्दवश किसी नीच जातिके पुत्रको उपदेश दे तो उसे शोध लगेगा या नहीं ? मैं इस बातको क्यापर्यन्तसे सुनना चाहता हूँ : क्योंकि धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है।

भीष्मजीने कहा—बेटा ! किसी नीच जातिके मनुष्यको उपदेश नहीं देना चाहिये; क्योंकि इससे उपदेश देनेवालेको महान् दोषकी प्राप्ति बतसायी जाती है। इस विषयमें यह दृष्टान्त सुनो, जो दुःखमें पड़े हुए

जातिके पुण्यको उपदेश देनेसे सम्बन्ध रखता है। हिमालय-के निकट एक बड़ा सुन्दर और पवित्र आश्रम था, जहाँ तित्थ और चारण विचरा करते थे। उसके आसपासका वन सदा फूलोंसे भरा रहता था। उस आश्रममें व्रत और नियमोंका पालन करनेवाले बहुत-से तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वहाँ सच और वैदमन्त्रोंके उच्चारणकी ध्वनि गूँजती रहती थी। अनेकों बालखिल्य ऋषि तथा संन्यासी उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे थे। एक दिन वहाँ एक शूद्र बड़े उत्साहसे आया। आश्रमवासी मुनियोंने उसका बड़ा आदर किया; तदनन्तर, उसे तप करनेकी इच्छा हुई, अतः उसने कुलपतिके दोनों चरणोंका स्पर्श करके कहा—'द्विजवर! मैं आपकी कृपासे धर्मका उपदेश सुनना चाहता हूँ। इसके लिये आप हमें विधिवत् संन्यासकी वीक्षा दें। मैं वनोंमें नीच शूद्र हूँ तथा आपकी शरणमें आया हूँ। आप मुझपर प्रसन्न होइये।' कुलपतिने कहा—'बेटा! शूद्रको संन्यास धारण करनेका अधिकार नहीं है, अतः तुम संन्यासीके वेधमें यहाँ नहीं रह सकते। यदि तुम्हारा यहाँ रहनेका विचार हो तो रहो, किंतु उच्च वर्णोंकी सेवा किया करो। सेवासे तुम्हें अत्यन्त उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।'

कुलपतिके ऐसा कहनेपर शूद्र सोचने लगा 'अब मुझे क्या करना चाहिये? शूद्रके लिये शास्त्रका ऐसा ही विधान हो तो भी मैं तो वही कहूँगा जो मेरे मनको प्रिय जान पड़ता है।' यह विचारकर उसने उस आश्रमसे दूर जाकर एक पर्णकुटी बनायी और यहाँ यज्ञके लिये देवी, रहनेके लिये स्थान और देवालया बनाकर वह नियमपूर्वक रहने लगा। वह प्रतिदिन नियमपूर्वक स्नान करता तथा देवालयामें जाकर देवताकी पूजा, बलि और होम किया करता था। फलाहार करके इन्द्रियोंको काबूमें रखता और उसके पास जो अन्न और फल आदि प्रस्तुत रहते, उनसे आये हुए अतिथियोंका सत्कार करता था। इस नियमका पालन करते हुए उस शूद्र मुनिको बहुत सनय भीत गया। एक दिन एक मुनि सत्संगकी वृष्टिसे उस आश्रमपर पधारे। शूद्रने विधिवत् स्वागत-सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। तबसे ये परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि उस शूद्रसे मिलनेके लिये यहाँ अनेकों बार आये। एक बार शूद्रने उन तपस्वी मुनिसे कहा—'मुने! मैं पितरोंका धात करना चाहता हूँ, आप कृपा करके इस कार्यको सम्पन्न करा दीजिये।' मुनिने 'बहुत अच्छा' कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, तब शूद्रने ऋषिको पाद निवेदन किया और जंगलसे कुशा, आसन, घटाई और

अन्न आदि श्राद्धोपयोगी सामान एकत्रित किया। फिर उन तपस्वी मुनिके आदेशानुसार बुद्धिमान् शूद्रने कुशा, अर्घ्य और हव्य-कव्य आदि समर्पण करनेकी सम्पूर्ण विधिका पालन किया। इस प्रकार जब श्राद्धका कार्य समाप्त हो गया तो वे मुनि उससे विदा लेकर चले गये और शूद्र धर्ममार्गमें स्थित हो गया।

तदनन्तर, दीर्घकालतक तपस्या करके उस शूद्रने वनमें ही प्राण-त्याग किया और अपने पुण्यके प्रभावसे वह एक राजवंशमें महान् तेजस्वी बालकके रूपमें उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार उन तपस्वी मुनिने भी समयानुसार मृत्युको प्राप्त होकर उसी राजवंशके पुरोहितके घरमें जन्म धारण किया। इस तरह वह शूद्र और वे मुनि एक ही स्थानपर उत्पन्न हुए, साथ-ही-साथ बढ़े और अनेकों विद्याओंमें प्रवीण हुए। ऋषिने वेद, कल्प और ज्योतिषशास्त्रमें पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त किया तथा सांख्यशास्त्रपर भी उनका बड़ा अनुराग था। कुछ दिनों बाद बड़े राजाका देहावसान हो गया। तब प्रजाने उस राजकुमारको राजतिलक दे दिया। राजा होनेपर उसने पुरोहितके घरमें उत्पन्न हुए ऋषिको ही अपना पुरोहित बनाया। उन्हें हर काममें आगे रखकर वह धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता हुआ बड़े सुखसे रहने लगा। पुरोहितजी प्रतिदिन राजाके सामने जब-जब पुण्याहवाचन तथा और कोई धार्मिक कार्य करते तो राजा उन्हें देखकर मुसकराता या ठठाकर हँस पड़ता था। पुरोहितने राजाके इस व्यनहारको अनेकों बार लक्ष्य किया। जब उसे बराबर अपना उपहास करता पाया तो उनके मनमें बड़ा खेद हुआ। एक दिन उन्होंने एकान्तमें राजासे मिलकर कहा—'राजन्! यदि आप मुझपर प्रसन्न हों तो मैं एक वर माँगना चाहता हूँ। किंतु पहले आप प्रतिज्ञा करें कि मैं जो कुछ पूछूँगा, उसका सही-सही उत्तर देंगे।' राजाने कहा—'हाँ-हाँ, यदि जानता होऊँगा तो अवश्य उत्तर दूँगा।'

तब पुरोहितने कहा—'प्रतिदिन देखता हूँ जब पुण्याह-वाचन या और कोई धार्मिक कृत्य अथवा शान्ति होम आदि कार्योंमें मैं प्रवृत्त होता हूँ, तब आप मेरी ओर देखकर हँसा करते हैं, इसका क्या कारण है? आप यों ही नहीं हँसते, इसका जरूर कोई-न-कोई कारण होगा, उसे ठीक-ठीक बतलाइये। मैं सुननेके लिये बहुत उत्सुक हूँ।' राजाने कहा—'विप्रवर! मैं पूर्वजन्ममें शूद्र था और आप महान् तपस्वी ब्राह्मण थे। उस समय आपने मुझपर कृपा करके बड़े प्रेमसे मुझे श्राद्धविषयक उपदेश किया था।

आसन, कुरा और हृद्य-कषयकी विधि बतायी थी। उसी कर्मबोधके कारण आप इस जन्ममें पुरोहित हुए हैं और मुझे राजा होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे साम्नेके लिये उपदेश करनेका फल आपको इस रूपमें मिला। यह सोचकर मुझे हँसी आती है; आपका अपमान करनेके लिये मैं उपहास नहीं करता; क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। आपको जो अपनी तपस्याके विपरीत फल भोगना पड़ा, उसको याद करके मुझे खेद और संताप हुआ करता है। मुझे आपके पूर्वजन्मकी स्मृति यकी हुई है, इसीसे आपको और देखकर हँसता था। आपकी उतनी बड़ी तपस्या केवल मुझे उपदेश देनेके कारण मट्ट हो गयी, इसलिये अब पुरोहितका काम छोड़कर ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे अगले जन्ममें आपको इससे भी नीच योनिमें न जाना पड़े।'

भीष्मजी कहते हैं—इस प्रकार राजाने जब पुरोहितको जानेको आशा दी तो उन्होंने सारा धन और जमीन-जायदाद ब्राह्मणोंको दान कर दी तथा विद्वान् ब्राह्मणोंके बताये अनुसार कठोर व्रतका पालन करते हुए अनेकों तीर्थोंमें स्नान किया और ब्राह्मणोंको गी तथा अन्य प्रकारके दान देकर अपने अन्तःकरणको पवित्र कर लिया।

तत्पश्चात् मनुकी वशमें करके वे अपने पूर्वजन्मके ही आधम-पर गये और वहाँ कठोर तपस्या करने लगे। तपके प्रभावसे उन्होंने परमसिद्धि प्राप्त कर ली और उस आधम-के रहनेवाले अन्यान्य ऋषियोंके भी वे सम्मानभाजन बन गये। युधिष्ठिर! यद्यपि वे पूर्वजन्ममें महान् ऋषि थे तो भी शूद्रको उपदेश देनेके कारण बड़े कष्टमें पड़ गये, अतः ब्राह्मणको किसी नीच वर्णके मनुष्यके प्रति उपदेश नहीं करना चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—ये तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं, इनके बीचमें उपदेश करनेसे ब्राह्मण बोधका भागी नहीं होता। अतः धर्म-पालनकी इच्छा रखनेवाले विद्वान् पुरुषको क्षुब्ध सोच-समझकर उपदेश करना चाहिये। राजपारकी वृष्टिसे उपदेश देनेवाला मनुष्य अपने ही धर्मकी हानि करता है। जब कोई प्रश्न करे तो अच्छी तरह सोच-विचारकर एक सिद्धान्त स्थिर करके उसका उत्तर देना चाहिये तथा उपदेश ऐसा करना चाहिये, जिससे धर्मकी पुष्टि हो। राजन्! उपदेशके सम्बन्धमें ये सारी बातें मैंने तुम्हें बतायीं। नीचको उपदेश देनेसे महान् क्लेशका सामना करना पड़ता है, इसलिये उसे उपदेश देना उचित नहीं है।

युधिष्ठिरके विविध प्रश्नोंका उत्तर तथा दानके लिये उत्तम पात्रका लक्षण

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! लोकपात्रका भस्ती-भक्ति निर्वाह करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको क्या करना चाहिये? कंसा स्वभाव बनाकर लोकमें जीवन-यापन करना चाहिये?

भीष्मजीने कहा—बेटा! शरीरसे तीन, वाणीसे चार और मनसे तीन—इस तरह कुल दस प्रकारके कर्मोंका त्याग करना चाहिये। हिंसा, चोरी और परस्त्रीगमन—ये तीन शरीरसे होनेवाले पाप हैं, इनका सर्वथा परित्याग करना उचित है। व्यर्थ बकवाद करना, निष्ठुर वचन कहना, चुगली खाना और शूठ बोलना—ये चार वाणीद्वारा होनेवाले पाप हैं। इन्हें न कभी जबान पर लाना चाहिये और न मनमें ही सोचना चाहिये। दूसरोंका धन हड़पनेकी इच्छा न करना, सब प्राणियोंपर प्रेम रखना और कर्मोंका फल अवश्य भित्ता है—इस बात पर विश्वास करना—ये तीन मनसे आवरण करने योग्य कार्य हैं। इन्हें सदा करना चाहिये और इनके विपरीत दूसरोंके धनका लालच करना, सम्पूर्ण प्राणियोंसे वंद रखना और कर्मोंके फलपर विश्वास न करना—ये तीन भानसिक पाप हैं, इनसे

सदा बचे रहना चाहिये। इसलिये मनुष्यका कर्तव्य है कि वह मन, वाणी या शरीरसे कभी अशुभ कर्म न करे, क्योंकि वह शम या अशुभ जंसा कर्म करता है, उसका फल उसे भोगना पड़ता है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! विद्वानोंका कहना है कि देवकार्यमें ब्राह्मणकी परीक्षा न करे, किंतु ध्यात्ममें अवश्य उसकी परीक्षा करे। इसका क्या कारण है?

भीष्मजीने कहा—बेटा! यज्ञ-होमादि देवकार्यकी सिद्धि ब्राह्मणके अधीन नहीं, देवताके अधीन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यजमान लोग देवताओंकी कृपासे ही यज्ञ करते हैं। किंतु ध्यात्म-कर्मकी सिद्धि ब्राह्मणके ही अधीन है; अतः उसमें सदा देवदेता ब्राह्मणोंको ही निर्मात्रित करना चाहिये, यह बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीने बहुत पहलेसे ही बता रखा है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! जो अपरिचित, विद्वान्, सन्धवी, तपस्वी अथवा यज्ञ करनेवालेहों, जहाँको श्यों दानका पात्र मानना चाहिये?

भीष्मजीने कहा—इस विषयमें पुत्र्यो, कायप, अग्नि और मार्कण्डेयमुनि—इन चार तेजस्वियोंका मत मनुकी।

पृथ्वी कहती है—जिस प्रकार महासागरमें फेंका हुआ डेला तुरंत गलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार पाजन, अर्घ्यापन और प्रतिग्रह—इन तीन वृत्तियोंसे जीविका चलानेवाले ब्राह्मणमें सारे दुष्कर्मोंका लय हो जाता है।

काश्यप कहते हैं—जो ब्राह्मण शीलसे रहित है, उसे छहों अङ्गनेसहित धेव, सांख्य और पुराणका ज्ञान तथा उत्तम कुलमें जन्म—ये सब मिलकर भी उत्तम गति नहीं प्रदान कर सकते।

अग्नि कहते हैं—जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता और अपनी विद्वत्तापर गर्व करने लगता है तथा जो अपनी विद्याके बलसे दूसरोंके यशका नामा करता है, वह धर्मसे भ्रष्ट होकर सत्यका पालन नहीं करता, अतः उसे नाशवान् लोकोंकी प्राप्ति होती है।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—यदि तराजूके एक पलड़ेमें एक हजार अश्वमेध-यज्ञको और दूसरेमें सत्यको रखकर तोला जाय तो भी न जाने वे सारे अश्वमेध-यज्ञ सत्यके आधेके बराबर भी होंगे या नहीं ?

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार अपार तेजवाले पृथ्वी, काश्यप, अग्नि और मार्कण्डेयजी ब्राह्मणोंके विषयमें अपना-अपना मत प्रकट करके चले गये।

युधिष्ठिरने पूछा—बाबाजी ! यदि ब्रह्मचारी ब्राह्मण भ्रातृमें भोजन करते हैं तो (उनका व्रत नष्ट हो जानेसे) उन्हें विद्या हुआ वान कैसे सफल हो सकता है ?

भीष्मजीने कहा—राजन् ! जिन्हें गुप्ते नियत वर्षोंतक ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करनेका आवेश दे रखा है, वे आदिष्टी कहलाते हैं। ऐसे धेवके पारगत आदिष्टी ब्राह्मण यदि भ्रातृमें भोजन करते हैं तो उनका अपना ही व्रत नष्ट होता है (इससे वाताका वान नहीं वृषित होता) *।

*श्राद्धमें भोजन कराने योग्य ब्राह्मणोंके विषयमें स्मृतियोंमें इस प्रकार उल्लेख मिलता है—'कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्निब्रह्मचारिणः। पितृमातृपुराश्चैव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्पदः ॥' तथा—'व्रतस्थमपि दौहित्र श्राद्धे यत्नेन भोजयेत्।' तात्पर्य यह कि 'क्रियानिष्ठ, तपस्वी, पञ्चाग्नि-का सेवन करनेवाले, ब्रह्मचारी तथा पिता-माताके भक्त—ये पाँच प्रकारके ब्राह्मण श्राद्धकी सम्पत्ति हैं—इन्हें भोजन करानेसे श्राद्धकर्मका पूर्णतया सम्पादन होता है।' तथा 'अपनी कन्याका बेटा ब्रह्मचारी हो तो भी यत्नपूर्वक उसे श्राद्धमें भोजन कराना चाहिये।' ऐसा करनेसे श्राद्धकर्ता पुण्यका भागी होता है। केवल श्राद्धमें ही ऐसी छूट दी गयी है। श्राद्धके अतिरिक्त और किसी कर्ममें ब्रह्मचारी-

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! विद्वानोंका कहना है कि धर्मके साधन और फल अनेक प्रकारके हैं; इसमें क्या कारण है, यह बतानेकी कृपा करें।

भीष्मजीने कहा—बेटा ! अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कोमलता, इन्द्रियसंयम और सरलता—ये धर्मके निरिक्त लक्षण हैं। जो लोग इस पृथ्वीपर धूम-धूमकर धर्मकी प्रशंसा तो करते हैं, किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते, वे पाखण्डी हैं। ऐसे लोगोंको जो सोना, रत्न, गौ और अश्व आदि वस्तुएँ दान करता है, वह नरकमें पड़कर बस वर्षोंतक विष्ठा खाता है। इतना ही नहीं, वह गाय-भंसका मांस खानेवाले चाण्डालों, चमारों, हत्यारों और राग एवं मोहवश दूसरोंके गुप्त रहस्यको प्रकट करनेवाले पापियोंकी विष्ठाका कीड़ा होता है। जो मूर्ख बलिबंदबदेवके समय आये हुए ब्रह्मचारी ब्राह्मणको अन्न नहीं देते, वे पापमय लोकोंमें जाते हैं।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है ? धर्मका सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है ? तथा सर्वोत्तम पवित्रता किसे कहते हैं ? यह बतानेकी कृपा कीजिये।

भीष्मजीने कहा—तात ! मांस और मरिचिका त्याग ब्रह्मचर्यसे भी श्रेष्ठ है (अर्थात् यही उत्तम ब्रह्मचर्य है)। वेदोक्त भयार्थामें स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और इन्द्रियोंकी विषयोंकी ओरसे हटाये रखना ही सर्वोत्तम पवित्रता है।

युधिष्ठिरने पूछा—बाबाजी ! मनुष्यको किस समय धार्मिक कृत्य करना चाहिये ? कब अर्घ्योपार्जनपर ध्यान देना चाहिये ? तथा किस समय सुख-भोगोंमें प्रवृत्त होना चाहिये ?

भीष्मजीने कहा—राजन् ! पूर्वार्द्धमें अर्घ्योपार्जनपर ध्यान देना चाहिये, तत्पश्चात् धर्मका सेवन करना चाहिये और सबके अन्तमें सुख-भोगमें प्रवृत्त होना चाहिये। किसी

को लोभ आदि दिखाकर जो उसके व्रतको भङ्ग करता है, उसे दोषका भागी होना पड़ता है और अपने किये हुए दानका भी पूरा-पूरा फल नहीं मिलता। इसीनिये शास्त्रमें लिखा है कि 'मनसा पात्रमुद्दिश्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्। दाता तत्फलमाप्नोति प्रतिग्राही न दोषभाक् ॥' अर्थात् 'यदि किसी सुपात्र (ब्रह्मचारी आदि) को दान देना हो तो उसका मनमें ध्यान करे और उसे दान देनेके उद्देश्यसे हाथमें संकल्पका जल लेकर उसको जलमें ही छोड़ दे। इससे दाताको दानका फल मिल जाता है और दान लेनेवालेको दोषका भागी नहीं होना पड़ता।' यह बात सत्पात्रका आदर करनेके लिये बतायी गयी है। —नीलकण्ठीके आधारपर

एकमें ही आसक्त नहीं होना चाहिये। ब्राह्मणों और गुण्जनोंका आदर-सत्कार करे, सब प्राणियोंके अनुकूल रहे, नश्रताका बर्ताव करे और सबसे भीठे खचन बोले। न्यायालयमें मूढ बोलना, राजासे कित्तौकी घुगली करना और गुरुके साथ कपटपूर्ण बर्ताव करना— ये तीन ब्रह्महत्याके समान पाप हैं। राजापर प्रहार न करे, गायको न मारे। जो इसके विपरीत करता है, उसे धूण-हत्याका पाप लगता है। वेदोंके स्वाध्याय और अग्निहोत्रका त्याग न करे तथा ब्राह्मणकी निन्नासे दूर रहे; क्योंकि ये सब दोष ब्रह्महत्याके समान हैं।

युधिष्ठिरने पूछा—कैसे ब्राह्मणको सत्पुरुष समझना चाहिये? और किनको दान देनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है?

भीष्मजीने कहा—जो क्रोधरहित, धर्मपरायण, सत्य-निष्ठ और इन्द्रियसंयममें लगे रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणोंको साधु पुरुष समझना चाहिये और उन्हींको दान देनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है। जिनमें अस्मिमानका नाम नहीं है, जो सब कुछ सह लेते हैं, जिनका विचार दृढ़ है, जो जितेन्द्रिय, सम्पूर्ण प्राणियोंके हितकारी तथा सबके साथ मित्रताका भाव रखनेवाले हैं, उनको दिया हुआ दान

महान् फल देनेवाला है। जो जित्तोम, पवित्र, विद्वान्, संकोचो, सत्यवादी और अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले हैं, उनको दान देनेसे भी महान् फलकी प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण अङ्गोत्सहित चारों वेदोंका अध्ययन करता और ब्राह्मणोचित छः कर्मों (अध्ययन-अभ्यापन, यजन-याजन और दान-प्रतिग्रह) में प्रवृत्त रहता है, उसे ऋषिलोग दानका उत्तम पात्र मानते हैं। ऊपर बताये हुए गुणोंसे युक्त ब्राह्मणोंको दिया हुआ दान महान् फल देनेवाला होता है। गुणवान् पुरुषको दान देनेसे दाताको हजारगुना फल मिलता है। यदि उत्तम बुद्धि, शास्त्रकी विद्वत्ता, सदाचार और सुशीलता आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न एक ब्राह्मण भी दान स्वीकार कर ले तो वह दाताके सम्पूर्ण कुलका उद्धार कर देता है; अतः ऐसे गुणवान् पुरुषको गौ, घोड़ा, अन्न, धन तथा दूसरे-दूसरे पदार्थ दान करने चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्यको भरनेके बाद परचाताप नहीं करना पड़ता। एक भी उत्तम ब्राह्मण सारे कुलको सार सकता है, यदि वह उपयुक्त गुणोंसे युक्त हो तब तो कहना ही क्या है? अतः सुपात्रको खोज करनी चाहिये। सत्यदुर्गोद्वारा सम्मार्गित गुणवान् ब्राह्मण यदि कहीं दूर भी सुनायी पड़े तो उसको बहसि अपने यहाँ बुलाता चाहिये तथा उसका अच्छी तरह पूजन और सत्कार करना चाहिये।

त्याज्य अन्न, श्राद्धमें निमन्त्रण देनेयोग्य ब्राह्मण, दानपात्र तथा नरक एवं स्वर्ग देनेवाले कर्मोंका विवेचन

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! देवता और ऋषियोंके श्राद्धके समय, देवयज्ञमें तथा पितृयज्ञमें जिस-जिस कार्यका विधान किया है, वह मैं आपके मुंहसे सुनना चाहता हूँ।

भीष्मजीने कहा—वेदा। मनुष्यको चाहिये कि स्नान आदिसे पवित्र होकर माङ्गलिक कार्य सम्पन्न करके बड़े यज्ञके साथ पूर्वार्हणमें देवसम्बन्धी कार्य, अपराह्णमें पितृकार्य और मध्याह्णमें मनुष्योंके कार्य (अर्तिप-सत्कार आदि) करे। अतसयका दान राक्षसोंका भाग माना गया है। जिस भोग्यपदार्थको किसीने लोभ दिया हो, चाट लिया हो, जो लड़ाई-झगड़ा करके तैयार किया गया हो अथवा जिसपर राजवस्त्रा स्त्रीकी दृष्टि पड़ी हो, वह भी राक्षसोंका ही भाग है। जिसके लिये लोभोंमें डिबोरा पीटा गया हो, जिसे प्रत-हीन मनुष्यने भोजन किया हो, जिस अन्नको कुत्तेने छू लिया हो अथवा जिसपर उसकी दृष्टि पड़ी हो, जिसमें कैरा या

कीड़े निर गये हों, जो छोक या आँसुसे दूषित हो गया हो अथवा जो तित्कारपूर्वक दिया गया हो, वह अन्न भी राक्षसोंका ही भाग है। मन्त्रमानसे रहित, शस्त्रधारी तथा दुराचारी पुरुषोंका साया हुआ अन्न, दूसरोंका अंश क्रिया हुआ और बेवता, पितर, अर्तिपि एवं बालक आदिको दिये बिना ही अपने उपभोगमें साया हुआ जो अन्न है, उसे भी राक्षसी भोजन ही समझना चाहिये। राजन्! मन्त्र और विधिसे हीन श्राद्धका अन्न, पीकी आहुति दिये बिना भोजनके लिये सामने रखा हुआ अन्न तथा जिसमेंसे पहले दुराचारी मनुष्योंको जिमा दिया गया हो वह अन्न भी राक्षसोंका ही भाग माना गया है। इस प्रकार जो भाग राक्षसोंको प्राप्त होते हैं, उनका वर्जन किया गया।

अब दातके योग्य ब्राह्मणकी परीक्षा करनेके विषयमें कुछ कहता हूँ, उसे सुनो। जो ब्राह्मण पतित, नष्ट या

उन्मत्त हो गये हों, वे देवकार्य या पितृकार्यमें निमन्त्रण पाने-के अधिकारी नहीं हैं। जितके वदनमें सफेद दाग हों, जो फोड़ी, नपुंसक, राजयक्ष्मा (तपेविक) और मृगीका रोगी तथा अंधा हो, उसे भी श्राद्धमें नहीं बुलाना चाहिए। घंघ, पुजारी, पाखण्डी, सोम-रस बेचनेवाले, गाने-बजाने और नाचनेवाले, खेल-कूदकर तमाशा दिलानेवाले, दफवावी, पहलवान, शूद्रोंका यज्ञ करनेवाले, शूद्रोंको पढ़ाने तथा शिष्य बनानेवाले ब्राह्मण श्राद्धमें निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं। धेतन लेकर देव पढ़ानेवाले और द्युत्ति लेकर देव पढ़नेवाले ब्राह्मण भी श्राद्धके योग्य नहीं हैं; पर्योँकि वे देवको बेचने-वाले हैं। जो पहले समाजका अगुआ रहा हो और पीछे उसने शूद्र जातिकी स्त्रीसे प्याह कर लिया हो, वह ब्राह्मण सम्पूर्ण विद्याओंका ज्ञाता होनेपर भी श्राद्धमें बुलाने योग्य नहीं है। अग्निहोत्र न करनेवाले, भूवाँ डोनेवाले, चोरी करनेवाले, पतित, अपरिचित, गाँवके मुखिया तथा पुत्रिका-धर्मके अनुसार नानाके घरमें रहनेवाले ब्राह्मण भी श्राद्धमें भोजन करनेके अधिकारी नहीं हैं। जो ब्राह्मण कर्ज या व्याज लेकर तथा प्राणियोंको बँचकर जीविका चलाता हो, जो स्त्रीके अधीन रहता हो, वैश्याका पति हो और संप्यावन्दन न करता हो, उसे भी श्राद्धमें निमन्त्रण नहीं देना चाहिये।

राजन्! देवयज्ञ और श्राद्धमें वर्जित ब्राह्मणका उल्लेख हो चुका। अब वान देने और लेनेवाले ऐसे पुरुषोंका वर्णन करता हूँ जो श्राद्धमें निषिद्ध होनेपर भी किसी विशेष गुणके कारण अनुग्रहपूर्वक ग्राह्य माने गये हैं, उनके विषयमें सुनो। जो ब्राह्मण खेतीसे जीविका चलाते हुए भी व्रतका पालन करनेवाले, सद्गुणसम्पन्न, क्रियानिष्ठ और गायत्री-मन्त्रके ज्ञाता हों, उन्हें श्राद्धमें निमन्त्रण दिया जा सकता है। जो युद्धमें क्षात्र-धर्मका पालन करता हुआ भी कुलीन हो, अग्निहोत्र करता हो, एक गाँवका रहनेवाला हो, चोरी न करता हो तथा अतिपि-सत्कारमें प्रवीण हो, उसे भी निमन्त्रण देना चाहिये। जो तीनों समय गायत्रीका जप करता है, भिक्षासे जीविका चलाता है, क्रियानिष्ठ है; जो सन्नेरे धनी और शामको गरीब तथा शामको धनी और सन्नेरे गरीब हो जाता है, किसी जीवकी हिंसा नहीं करता

१ जब कोई अपनी कन्याको इस शर्तपर व्याहृता है कि 'इससे जो पहला पुत्र होगा, उसे मैं मोद ले लूँगा और अपना पुत्र मानूँगा' तो उसे 'पुत्रिका-धर्मके अनुसार विवाह' कहते हैं। इस नियमसे प्राप्त होनेवाला पुत्र श्राद्ध-भोजनका अधिकारी नहीं है।

तथा जिसमें दोघोंकी कमी है, उसे भी श्राद्धमें भोजन कराया जा सकता है। जो दम्भरहित, व्यर्थ तक-वितर्क न करने-वाला और योग्य स्थानसे भिक्षा लेनेवाला है, वह श्राद्धमें निमन्त्रण देने योग्य है। जिसने पहले कठोर कर्म करके धनका संग्रह किया हो, किंतु पीछे अतिथिसेवाका व्रत धारण कर लिया हो, वह श्राद्धमें सम्मिलित करने योग्य हो जाता है। जो धन देव बेचकर या स्त्रीकी कमाईसे प्राप्त हुआ हो अथवा जो लोगोंके सामने वीनता दिखाकर भाँग लाया गया हो, वह श्राद्धमें ब्राह्मणको देने योग्य नहीं है।

जो ब्राह्मण श्राद्ध समाप्त होनेपर 'अस्तु स्वधा' अथि उचित वाक्योंका प्रयोग नहीं करता, उसे गौकी झूठी शपथ खानेका पाप लगता है। ब्राह्मणके यहाँ श्राद्ध समाप्त होने-पर 'अस्तु स्वधा' इस वाक्यका उच्चारण करनेपर पितरोंको प्रसन्नता होती है, क्षत्रियके यहाँ श्राद्धकी समाप्तिमें 'पितरः प्रीयन्ताम्' (पितर तृप्त हो जायें) इस वाक्यका उच्चारण करना चाहिये और वैश्यके घर 'अक्षय्यमस्तु' (श्राद्धका वान अक्षय हो) कहना चाहिये। इसी तरह जब ब्राह्मणके यहाँ देवकार्य होता हो तो उसमें ॐकारसहित पुण्याहवाचन-का विधान है (अर्थात् 'ॐ पुण्याहम्' का उच्चारण करे)। क्षत्रियके यहाँ ओंकाररहित पुण्याहवाचनकी विधि है (अर्थात् केवल 'पुण्याहम्' का उच्चारण करे)। तथा वैश्यके घर देवकार्यमें 'देवताः प्रीयन्ताम्' (देवता प्रसन्न हों) इस वाक्य-का प्रयोग करे। अब क्रमशः तीनों वर्णोंके कर्मानुष्ठानकी विधि सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य-इन तीनों वर्णोंके जात-कर्मादि संस्कार वैदिक मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक कराने चाहिये। उपनयनके समय ब्राह्मणको मूँजकी, क्षत्रियको प्रत्यञ्चाकी और वैश्यको बल्लज (एक प्रकारके तृण) की मेखला धारण करनी चाहिये।

अब वाता और वान लेनेवालेके धर्म-अधर्मका वर्णन सुनो। ब्राह्मणको झूठ बोलनेपर जितना पाप लगता है, उससे चौगुना क्षत्रियको और आठगुना वैश्यको लगता है। यदि किसी ब्राह्मणने पहलेसे ही श्राद्धका निमन्त्रण दे रक्खा हो तो निमन्त्रित ब्राह्मणको दूसरी जगह जाकर भोजन नहीं करना चाहिये। यदि करता है तो उसको छोटा समझा जाता है और उसे पशु-हिंसाका पाप लगता है। इसी प्रकार यदि उसे किसी क्षत्रिय या वैश्यने पहलेसे निमन्त्रण दे रक्खा हो और वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले तो छोटा समझा जानेके साथ ही वह पशु-हिंसाके आधे पापका भागी होता है। राजन्! जो ब्राह्मण तीनों वर्णोंके यहाँ देव-यज्ञ अथवा श्राद्धमें स्नान किये बिना ही भोजन करता है अथवा जो सोभवा जान-बूझकर अपने घरमें अशौच रहते हुए भी

दूसरेके यहाँ श्राद्धका अन्न ग्रहण करता है, उसको गौकी मूठी शपथ खानेका पाप लगता है। जो किसी कामका बहाना करके दूसरोंसे धन माँगते हैं, उन्हें मूठ बोलनेका पाप होता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वेद-व्रतका पालन न करनेवाले ब्राह्मणोंको श्राद्धमें मन्त्रोच्चारणपूर्वक अन्न परोसता है, उसे भी गायकी मूठी शपथ खानेका पाप लगता है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! देव-यज्ञ अथवा श्राद्ध-कर्ममें जो दान दिया जाता है, यह कैसे पुण्योंको देनेसे महान् फलकी प्राप्ति करनेवाला होता है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! जैसे किसान वर्षाकी बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार जिनके घरोंकी छिन्नयाँ अपने स्वामीकी जूँन पानेके लिये प्रतीक्षा करती रहती हैं, उनको तुम अवश्य भोजन कराना। जो सवाचारी हों, भोजन न मिलनेके कारण दुर्बल हो गये हों तथा जिनकी जीविका क्षीण हो गयी हो, ऐसे लोग यदि याचक होकर आते हैं तो उन्हें दिया हुआ दान महान् फलकी प्राप्ति कराने-वाला होता है। जो सवाचारके भक्त हैं, जिनके घरमें सवाचारका ही पालन होता है, जो सदाचारको ही बल और सवाचारको ही परलोकमें सहारा देनेवाला मानते हैं तथा विशेष आवश्यकता पड़नेपर ही याचना करते हैं, उनको दान देनेसे महान् फल होता है। चोर और शत्रुओंके भयसे पीडित होकर जो केवल भोजनकी याचना करनेके लिये आते हैं, जिनके मनमें किसी तरहका कष्ट नहीं है तथा अत्यन्त वरिष्ठ होनेके कारण जिनके हाथपर अन्न आते ही उनके मूँचे हुए बच्चे 'मुझे दो, मुझे दो' कहते हुए माँगनेकी बाँझते हैं, ऐसे लोगोंको दान देनेसे महान् फल होता है। देशमें विप्लव होनेके समय जिनके धन और स्त्रियाँ धिन गयी हों, ऐसे ब्राह्मण यदि धनकी याचनाके लिये आँवें तो उन्हें देनेसे महान् पुण्य होता है। जो व्रत और नियममें लगे हुए ब्राह्मण व्रतके उद्यापनके लिये धन चाहते हों तथा जो पाण्डित्यके धर्मसे दूर रहकर अन्न न मिलनेके कारण दुर्बल एवं निर्धन हो गये हों ऐसे ब्राह्मणोंको भी धन देने से बड़ा भारी पुण्य होता है। निर्दोष होनेपर भी बलवान् मनुष्योंद्वारा जिनका सर्वस्व लूट लिया गया हो, फिर भी जो छानेके लिये अन्न-मात्र चाहते हों तथा जो तपस्वी, तपोनिष्ठ और तपस्वियोंके लिये भीख माँगनेवाले हों, ऐसे याचकोंको जो कुछ दिया जाय, उसका महान् फल होता है।

युधिष्ठिर! किनको दान देनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है, यह विषय मैंने तुम्हें सुना दिया। अब जिस कर्मसे

मनुष्यको नरक या स्वर्गमें जाना होता है, उसे गुनो। जो मनुष्य गुह्यको साम पहुँचाने अथवा किसीको भयसे मुक्त करनेके अतिरिक्त और किसी उद्देश्यसे मूठ बोलते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं। दूसरोंकी स्त्री चुरानेवाले, परायी स्त्रीका सतीत्व नष्ट करनेवाले, दूत बनकर परस्त्रीको दूसरोंसे मिलानेवाले, दूसरोंके धनको हड़पने या नष्ट करनेवाले और दूसरोंकी बगली खानेवाले मनुष्योंको भी नरकमें गिरना पड़ता है। जो पौसलों, धर्मशालाओं, पुकों और दूसरोंके घरोंको नष्ट करते हैं, जो अनाथ, दुर्बल, तपस्वी, बालिका, भयभीत और तपस्विनी स्त्रियोंको धोषेमें डालते हैं तथा जो दूसरोंकी जीविका नष्ट करते, घर उजाड़ते, पति-पत्नीमें बिछोह डालते, मित्रोंमें विरोध पैदा करते और किसीकी आशा भंग करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। बगली खानेवाले, कुल या धर्मकी भर्सादा नष्ट करनेवाले, दूसरोंकी जीविका-पर गुजारा करनेवाले, मित्रोंद्वारा किये गये उपकारको भुला देनेवाले, पाण्डवी, निन्दक, धार्मिक नियमोंके विरोधी तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ-आश्रममें लौट आनेवाले पुरुष भी नरकमें पड़ते हैं। जिनका ध्यवहार सबके विषय पड़ता है, जो साम और वृद्धिमें विषम वृष्टि रखते हैं, जो दूतका काम करते और किसी मनुष्यकी परछ करनेमें असमर्थ होते हैं, जिनकी सदा जीवहिंसामें प्रवृत्ति होती है तथा जो वेतन पर रखते हुए परिश्रमी नौकरको कुछ देनेकी आशा देकर और देनेका समय नियत करके उसके पहले ही भेद-नीतिके द्वारा उसे मालिकके यहाँ से निकलवा देते हैं, उन्हें नरकमें जाना पड़ता है। जो पितरों और देवताओंको पूजाका त्याग करके अग्निमें आहुति दिये बिना ही अतिथि, पोष्यवां तथा स्त्री-बच्चोंसे पहले ही भोजन कर लेते हैं, जो वेद बेचते, वेदोंकी निन्दा करते, आश्रममर्यादाके बाहर रहते, वेदविषय कार्य करते, अद्यमसे जीविका चलाते, बेरा, विष और दूधकी बिक्री करते, ब्राह्मण, गौ तथा कन्याओंके कार्योंमें विघ्न डालते, हथियार बेचते, धनुष-बाण बनाते तथा जो पत्थर रखकर, काँटे बिछाकर और गड़दे सोदकर रास्ता रोकते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। जो शुद्ध हृदय वाले अध्यापकों, भृत्यों और भक्तोंका त्याग कर देते हैं, जो बँलोंको कुटवाते (बधिया करते), नापते और परगुओंको कठपरेमें बँध करते हैं, जो राजा होकर भी प्रजाको रक्षा नहीं करते और उसकी आम्दनीके छठे भागको लगानके रूपमें सूटते रहते हैं तथा जो समर्थ होनेपर भी दान नहीं करते, वे भी नरकमें जाते हैं। जो क्षमाशील, जितेन्द्रिय, विद्वान् तथा बहुत दिनोंसे अपने साथ रहनेवाले पुरुषोंको काम निकल जानेपर त्याग देते हैं तथा जो बच्चों, दुर्बल और

नीकरोंको दिये बिना ही पहले स्वयं भोजन कर लेते हैं, उन्हें भी नरकमें जाना पड़ता है ।

इस प्रकार पहले नरकगामी मनुष्योंका वर्णन किया गया । अब स्वर्गमें जानेवालोंका वर्णन करता हूँ । जो दान, तपस्या और सत्यके द्वारा धर्मका अनुसरण करते हैं, गुरु-शुभ्रषा और तपस्यापूर्वक विद्याध्ययन करके प्रतिग्रहसे राग नहीं रखते, जिनके प्रयत्नसे मनुष्य भय, पाप, नाशा, दरिद्रता तथा रोगसे छुटकारा पा जाते हैं, जो क्षमावान्, धीर, धर्मकार्यमें उत्साह रखनेवाले और माङ्गलिक आचारसे सम्पन्न हैं तथा जो मधु, मांस, मदिरा और परस्त्रीसे दूर रहते और आश्रम, कुलधर्म, वेश तथा नगरोंकी रक्षा करते हैं, वे पुरुष स्वर्गमें जाते हैं । जो वस्त्र, आभूषण, भोजन, पानी तथा भक्षण करते हैं, दूसरोंका ब्याह करा देते हैं, सब प्रकारकी हिंसासे अलग रहते हैं, सब कुछ सहन करते और सबको आश्रय देते हैं, जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिताकी सेवा करते और भाइयोंपर स्नेह रखते हैं, जो धनी, बलवान् और नौजवान होकर भी इन्द्रियोंकी वशमें रखते हैं, जो

अपराधियोंपर भी दया करते हैं, जिनका स्वभाव मृदुल होता है तथा जो मृदुल स्वभाववाले व्यक्तियोंपर प्रेम रखते हैं, जिन्हें दूसरोंकी आराधना (सेवा) में ही सुख मिलता है और जो हजारों मनुष्योंको भोजन परोसते, हजारोंको धन देते तथा हजारोंकी रक्षा करते हैं, उन्हें स्वर्गकी प्राप्ति होती है । जो सुवर्ण, गौ, पालकी, सवारी, वैवाहिक सामान, दास-दासी तथा वस्त्र दान करते हैं, जो दूसरोंके लिये आश्रय, गृह, उद्यान, कुआँ, बगीचा, धर्मशाला, पौंसला तथा चहार-दीवारी बनवाते हैं, जो याचकोंको घर, खेत और गाँव प्रदान करते हैं, जो स्वयं ही पंदा करके रस, बीज और अन्न दान करते हैं तथा जो किसी भी कुलमें उत्पन्न हो बहुत-से पुत्रों और सौ वर्षकी आयुसे युक्त होकर दूसरोंपर दया करते और क्रोधको काबूमें रखते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं । भारत ! यह मैंने तुमसे परलोकमें कल्याण करनेवाले देवकार्य और पितृकार्यका वर्णन किया तथा प्राचीनकालमें ऋषियोंद्वारा बतलाए हुए दान-धर्म और उसकी महिमाका भी निरूपण किया है ।

ब्रह्महत्याके समान पापों तथा विविध तीर्थोंका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—दायाजी ! ब्राह्मणकी हिंसा न करनेपर भी मनुष्यको ब्रह्महत्याका पाप कैसे लगता है ? इस बातको ठीक-ठीक बताने की कृपा कीजिये ।

भीष्मजीने कहा—राजन् ! पूर्वकालमें मैंने एक बार प्यासलीको बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था (तथा उन्होंने मुझे जो उत्तरा उत्तर दिया था) वह सब तुमसे बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो । मैंने पूछा था—'मुने ! ब्राह्मणकी हिंसा न करनेपर भी किन कर्मोंके करनेसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है ?' इस प्रकार पूछनेपर धर्मनिपुण प्यासलीने मुझे यह संवेहरहित उत्तर दिया 'भीष्म ! जिसके पास कोई आजीविका नहीं है ऐसे ब्राह्मणको जो स्वयं भिक्षा देनेके लिये बुलाकर पीछे बैठेते इत्कार कर देता है, उसको ब्रह्महत्याका समझो । जो दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य तटस्थ रहनेवाले विद्वान् ब्राह्मणकी जीविका छीन लेता है और प्यासले कष्ट पाती हुई गौओंके पानी पीनेमें विघ्न डालता है, उसको भी ब्रह्महत्याका ही समझना चाहिये । जो उत्तम कर्तव्यका विधान करनेवाली श्रुतियों और ऋषिप्रणीत शास्त्रोंपर बिना समझे-झूठे दोषारोपण करते हैं, जो अपनी रूपवती कन्याकी बड़ी उन्न हो जानेपर भी उसका योग्य बरके साप विवाह नहीं करते, उन्हें भी ब्रह्महत्याका पाप लगता है । जो पाप-

परायण मूलं मनुष्य ब्राह्मणको धर्य ही मर्ममेदी शोकका शिकार बनता है, जो अंधे, लूले और गूँगे मनुष्योंका सर्वस्व हरण कर लेता है तथा जो मोहवश आश्रम, वन, गाँव अथवा नगरमें आग लगा देता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही समझना चाहिये ।'

युधिष्ठिरने पूछा—भरतभ्रष्ट ! तीर्थोंका दर्शन करना, उनमें स्नान करना और उनका माहात्म्य सुनना श्रेयस्कर बताया गया है, अतः मैं तीर्थोंका वर्णन सुनना चाहता हूँ । इस पृथ्वीपर जितने पवित्र तीर्थ हैं, उन्हें बतलानेकी कृपा कीजिये ।

भीष्मजीने कहा—राजन् ! पूर्वकालमें अङ्गिराने तीर्थ समूहका वर्णन किया था, उसे ही सुनो । इससे तुम्हें उत्तम धर्मकी प्राप्ति होगी । एक समयकी बात है, महा-मुनि अङ्गिरा अपने तपोवनमें विराजमान थे । उस समय उत्तम व्रतका आवरण करनेवाले गौतमने उनके पास जाकर पूछा—'महामुने ! तीर्थोंमें स्नान करनेसे मृत्युके बाद किस फलकी प्राप्ति होती है ? इसका यथावत् वर्णन कीजिये ।'

अङ्गिराने कहा—मनुष्य उपवास करके चन्द्रभागा और वितस्तामें सात दिनतक स्नान करे तो वह (सब पापोंसे छूटकर) मुनिके समान निर्मल हो जाता है । कामीर

प्राग्तकी जो-जो नदियाँ महानद सिन्धुमें मिलती हैं, उन-उन नदियोंमें तथा सिन्धुमें स्नान करके शीलवान् पुरुष मरनेके बाद स्वर्गमें जाता है। पुष्कर, प्रमास, नैमियारण्य, सागरोदक (समुद्रजल), देविका, इन्द्रमार्ग और स्वर्गबिन्दु—इन तीर्थोंमें स्नान करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गकी यात्रा करता है और अप्सराएँ स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं। हिरण्यबिन्दु तीर्थमें स्नान करके यहाँके प्रधान देवता भगवान् कुशोपको पवित्र भावसे प्रणाम करनेपर मनुष्यका सारा पाप दूर हो जाता है। गन्धमादन पर्वतके निकट इन्द्रतोया नामकी नदीमें और कुण्डलेश्वरके भीतर करतोया नदीमें स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है तथा परम पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है गङ्गाधार (हरिधार), कुरावर्त, बिल्वक, नीलपर्वत तथा कनकल तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य पाप-रहित होकर स्वर्गमें जाता है। यदि कोई क्रोधहीन, सत्य-प्रतिष्ठ और अहिंसक होकर ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ सलिलहृद तीर्थमें डूबकी सगावे तो उसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है। जिस स्थानपर भागीरथी गङ्गा उत्तर विशाकी और बहती है, वह भगवान् शंकरका (स्वर्ग, मर्त्य-लोक और पातालरूप) त्रिविध स्थान है, उस विस्थाननामक तीर्थमें स्नान करके जो एक मासतक उपवास करता है, उसे देवताओंके दर्शन होते हैं। सप्तगङ्गा, त्रिगङ्गा और इन्द्रमार्गमें पितरोंका तर्पण करनेवाला मनुष्य यदि पुनर्जन्म लेता है तो उसे अमृत भोजन मिलता है (अर्थात् वह देवता हो जाता है)। महाभ्रमतीर्थमें स्नान करके प्रतिदिन पवित्र भावसे अग्निहोत्र करते हुए जो एक महीनेतक उपवास करता है, वह सिद्ध हो जाता है। जो सोमका त्याग करके मृगु-तुङ्गकोवके महाहवननामक तीर्थमें स्नान करता और तीन राततक निराहार रहता है, वह ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है। कन्याकूपमें स्नान करके बलाका तीर्थमें तर्पण करनेवाले पुद्गपकी देवताओंमें कीर्ति फलती है और वह अपने घरसे सुरोमित होता है। देविकाकुण्ड, सुन्दरिकाकुण्ड और अश्विनोक्तुमार क्षेत्रमें स्नान करनेपर मृत्युके परचात् दूसरे जन्ममें रूप और तेजकी प्राप्ति होती है। महागङ्गा और कृत्तिकाङ्गारक तीर्थमें स्नान करके एक पक्षतक निराहार रहनेवाले मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गमें जाता है। जो वैमानिक और किङ्कणीकाधम तीर्थमें स्नान करता है, वह अप्सराओंके विष्य लोकमें जाकर सम्मानित होता और इच्छानुसार विचरा करता है। जो कालिकाधममें स्नान करके विपारा नदीमें पितरोंका तर्पण करता है और क्रोधकी ओतकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए तीन रात-

तक वहाँ निवास करता है, वह जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जाता है।

जो कृत्तिकाधममें स्नान करके पितरोंका तर्पण और महा-देवजीको प्रसन्न करता है, वह पापमूर्त होकर स्वर्गलोकमें जाता है। महापुतीर्थमें स्नान करके पवित्रतापूर्वक तीन राततक उपवास करनेसे घराघर प्राणियों तथा मनुष्योंसे भय नहीं रहता। जो देवदारु वनमें स्नान करके तर्पण करता है और पवित्रभावसे सात राततक वहाँ निवास करता है, उसके पाप धुल जाते हैं और मृत्युके पश्चात् वह देवलोकको प्राप्त होता है। जो शरस्तम्भ, कुरास्तम्भ और द्रोणशामपर्व तीर्थके धरनोंमें स्नान करता है, उसकी अप्सराएँ सेवा करती हैं। जनस्थानमें (गोदावरीके जलमें) और चित्रकूटमें मन्दाकिनीके जलमें स्नान करके उपवास करनेवाला पुरुष राजसभ्यसे सेवित होता है। श्यामभम-तीर्थमें जाकर, वहाँ स्नान, निवास तथा एक पक्षतक उपवास करनेसे (गन्धर्वलोकके) अन्तर्धान आदि भोग प्राप्त होते हैं। जो कौशिकी नदीमें स्नान करके निष्काम भावसे इक्ष्वाकु राततक बायु पीकर रह जाता है, वह स्वर्गको प्राप्त होता है। जो भतङ्गवापी तीर्थमें स्नान करता है, उसे एक रातमें सिद्धि प्राप्त होती है। जो अनालम्ब, अन्धक और सनातन तीर्थमें डूबकी सगाता तथा नैमियारण्यके स्वर्ग-तीर्थमें स्नान करके इन्द्रियसंपन्नपूर्वक एक मासतक पितरोंको जलाञ्जलि देता है, उसे यज्ञका फल प्राप्त होता है। गङ्गाहृद और जल्पतावन तीर्थमें स्नान करके एक महीने-तक पितृ-तर्पण करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। गङ्गा-यमुनाके संगममें तथा कालञ्जरीगिरि तीर्थमें एक मासतक स्नान और तर्पण करनेसे बस अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है। यद्विह्वरमें स्नान करनेसे अश्वमेधसे भी अधिक फल मिलता है। माघकी अमावास्याको प्रयागराजमें तीन करोड़ बस हजार तीर्थोंका सप्तागम होता है। जो नियमपूर्वक उत्तम प्रतका पालन करते हुए माघके महीनेमें प्रयागमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गको प्राप्त होता है। जो पवित्र भावसे महद्गण तीर्थ, पितृगणोंके आश्रम तथा श्वेत्स्वत तीर्थमें स्नान करता है, वह स्वर्ग तीर्थरूप हो जाता है। तथा जो ब्रह्मसर (पुष्कर) और भागीरथी (गङ्गा) में स्नान करके पितरोंका तर्पण करता और वहाँ एक मासतक निराहार रहता है, उसे चन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। ज्योतिष तीर्थमें स्नान और अष्टादश तीर्थमें तर्पण करके बाहू दिनक निराहार रहनेसे यज्ञका फल मिलता है। गगनमें अमृत (प्रेतशिला) को यात्रा करनेसे पहले, विरि...

ती तथा श्रीचन्द्रपर्वी नामक तीर्थकी यात्रा करने-
 से श्रेष्ठहत्यासे छुटकारा मिलता है। कलविष्णु
 मान करनेसे अनेकों तीर्थोंमें गौतमे लगानेका फल
 । अग्निपुर तीर्थमें डूबकी लगानेसे अग्निकन्यापुर-
 वास प्राप्त होता है। करवीरपुरमें स्नान, विशालामें
 और देवहृदमें नञ्जन करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो
 है। जो सब प्रकारकी हिंसाका त्याग करके
 अश्विमावसे श्रावणानन्दा और महाहनन्दा तीर्थका सेवन
 करता है, वह नन्दनवनमें अम्भराओमि सेवित होता है।
 कातिककी पूर्णिमाको कृत्तिकाका योग होनेपर, एकाग्र-
 व्रत होकर चर्चशी और लौहित्यतीर्थमें विधिपूर्वक स्नान
 करता है उसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता है। रामहृद
 (परमुरामकुण्ड) में स्नान और विषाशा नदीमें तर्पण करके
 बाह्य दिनौतिक उपवास करनेवाला पुरुष सब पापोंसे छूट
 जाता है। यदि मनुष्य महाहृदमें स्नान करके शूद्रचित्तसे
 एक महीनेतक निराहार रहे तो उसे जयदगिनके समान
 नद्गति प्राप्त होती है। जो हिंसाका त्याग करके सत्य-
 प्रतिज्ञ होकर विष्णुचलमें रहता और अपने शरीरको कष्ट
 देकर चित्तपूर्वक तपस्या करता है, उसको एक महीनेमें
 सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नर्मदा नदी और शूर्पारक-
 क्षेत्रके जलमें स्नान करके एक पक्षतक निराहार रहनेवाला
 मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार होता है। जो इन्द्रिय-
 संयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो तीन महीनेतक जन्ममार्गकी
 यात्रा करता है, उसे एक दिन-रातमें ही सिद्धि प्राप्त हो
 जाती है। जो कौकामुख तीर्थमें स्नान करके आञ्जलिका-
 श्रम तीर्थमें जाकर सागका भोजन करता हुआ चौरवस्त्र
 धारण करके कुछ कालतक निवास करता है, उसे दस
 बार कन्याकुमारो तीर्थके सेवनका फल प्राप्त होता है तथा
 उसे कनो यमराजके घर नहीं जाना पड़ता। जो कन्याहृद
 (कन्याकुमारो तीर्थ) में निवास करता है, वह मृत्युके
 परवान् देवलोकमें जाता है। जो एकाग्रचित्त होकर
 अनावात्स्याको प्रभासतीर्थका सेवन करता है, उसे एक ही
 रातमें सिद्धि मिल जाती है तथा शरीर-त्यागके बाद वह
 अमर (देवता) हो जाता है। उज्जानक तीर्थ, आष्टिषेण
 तथा पिङ्गाके आश्रममें स्नान करनेसे सब पापोंसे छुटकारा
 मिल जाता है। जो कुल्या नदीमें स्नान करके अथमर्षण

मन्त्रका जप करता तथा तीन राततक वहाँ उपवास करके
 रहता है, उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। जो
 पिण्डारक तीर्थमें स्नान करके एक रात वहाँ निवास करता
 है, वह सबेरा होते ही पवित्र हो जाता है और उसे अग्निष्टोम
 यज्ञका फल मिलता है। धर्मारण्यसे सुशोभित ब्रह्मसरमें
 स्नान करनेवाला मनुष्य पवित्र होकर पुण्डरीक यज्ञका
 फल प्राप्त करता है। मैनाक पर्वतपर एक महीनेतक
 स्नान और संध्योपासन करनेसे मनुष्य कामको जीतकर
 समस्त यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। सौ योजनकी यात्रा
 करके कालोदक, नन्दिकुण्ड तथा उत्तरमानस तीर्थमें स्नान
 करनेवाला मनुष्य भ्रूणहत्याके पापसे मुक्त हो जाता है।
 नन्दीश्वरकी मूर्तिका दर्शन करनेसे सब पाप छूट जाते हैं
 और स्वर्गमार्ग नामक तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्योंको
 ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। भगवान् शंकरका श्वशुर
 हिमवान् पर्वत पर परम पवित्र और संसारमें विद्वयात
 है, वह सब रत्नोंकी खानि तथा सिद्धि और चारणोंसे
 सेवित है। जो वेदान्तका ज्ञाता द्विज इस जीवनको नाशवान्
 समझकर उक्त पर्वतपर रहता और देवताओंका पूजन
 तथा मुनियोंको प्रणाम करके विधिपूर्वक अनशानके द्वारा
 प्राण त्याग देता है, वह सिद्ध होकर सनातन ब्रह्मलोकको
 प्राप्त होता है। जो मनुष्य काम, क्रोध और लोभको
 जीतकर तीर्थोंमें निवास करता है, उसे उस तीर्थयात्राके
 पुण्यसे कोई बन्तु दुर्लभ नहीं रहती। जो समस्त तीर्थोंके
 दर्शनकी इच्छा रखता हो, वह दुर्गम और अगम्य होनेके
 कारण जिन तीर्थोंमें शरीरसे न जा सके वहाँ मानसिक
 यात्रा करे। यह तीर्थसेवनका कार्य परम पवित्र, पुण्यप्रद
 स्वर्गका उत्तम साधन और वेदोंका गुप्त रहस्य है। प्रत्ये
 तीर्थ पवित्र और स्नानके योग्य होता है।

तीर्थोंका यह माहात्म्य द्विजातियोंके, अपने हितैषी
 पुरुषोंके, सुहृदोंके और अनुगत शिष्योंके ही कालमें उ
 चाहिये। इसे महातपस्वी अङ्गिराने गीतमको सुनाया
 अङ्गिराको यह माहात्म्य काश्यपसे प्राप्त हुआ य
 क्या महापुरुषोंके पढ़ने योग्य और परम पवित्र
 सावधान होकर सदा इसका पाठ करता है, वह स
 मुक्त होकर स्वर्गलोकको जाता है।

गङ्गाजी के माहात्म्यका वर्णन

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! बुद्धिमें बृहस्पति, कामा में ब्रह्माजी, पराक्रममें इन्द्र और तेजमें धूमके समान गङ्गानन्दन भीष्मजी जब वीर-शय्यापर पड़े हुए कालकी घाट जोह रहे थे और राजा युधिष्ठिर उनसे तरह-तरहके प्रश्न कर रहे थे, उसी समय बहुत-से दिव्य भूहिप भीष्मजीको देखनेके लिये आये। उनके नाम ये हैं—अति, वसिष्ठ, भृगु, पुनस्त्य, पुलह, प्रतु, अङ्गिरा, गौतम, अगस्त्य, सुमति, विश्वामित्र, स्मृलशिरा, संवर्त, प्रमति, दम, बृहस्पति, शुक्राचार्य, ध्यास, ज्यवन, कारयप, ध्रुव, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कण्डेय, गालव, भरद्वाज, रभ्य, पक्कीत, त्रित, स्मृलास, शबलाक्ष, कण्व, मेघातिथि, ह्यरा, नारद, पर्वत, सुधन्वा, एकत, नितम्भ, भुवन, धौम्य, शतानन्द, अकृतव्रण, परशुराम और कच । ये सभी महात्मा जब वहाँ पधारे तो भाइयों-सहित राजा युधिष्ठिरने उनकी विधिबत् पूजा की। तत्पश्चात् वे सुलपूर्वक बैठकर भीष्मजीसे सम्बन्ध रखनेवाली मधुर एवं मनोहर कथाएँ कहने लगे। शुद्धचित्तवाले उन तदनुत्तर, वे महाविष्णु भीष्मजी और पाण्डवोंकी अनुमति लेकर साथके बैठते-बैठते वहाँसे अदृश्य हो गये। उसके बाद धर्मपुत्र युधिष्ठिरने भीष्मजीके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और पुनः उनसे धर्मविषयक प्रश्न पूछा—वितामह ! कौन-से देश, कौन-से प्रान्त, कौन-कौन आश्रम, कौन-से पर्वत और कौन-कौन-सी नदियाँ पुष्पकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य हैं ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें शिलोच्छ्वृत्तसे जीविका चलानेवाले एक पुरुषका किसी सिद्ध पुरुषके साथ जो संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास सुनो—कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वीकी अनेकों धार परिक्रमा करनेके बाद शिलोच्छ्वृत्तसे जीविका चलानेवाले एक श्रेष्ठ गृहस्थके घर गया। उसने इसकी विधिबत् पूजा की और यह प्रश्न होकर बड़े सुलके साथ दत्तमर उस गृहस्थके घरमें रहा। सबेरा होनेपर वह गृहस्थ स्नानादिते पवित्र होकर प्रातःकालीन नित्यकर्ममें लग गया। जब उससे निवृत्त हुआ तो फिर उस सिद्ध अतिथिकी सेवामें जा पहुँचा। फिर दोनों महात्मा सुलपूर्वक बैठकर वेद-वेदान्तविषयक चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद शिलोच्छ्वृत्तवाले गृहस्थ ब्राह्मणने सुम्हारी ही तरह प्रश्न किया—'कौन-कौन-से देश, जनपद (प्रान्त), आश्रम, पर्वत और नदियाँ पुष्पकी दृष्टिसे सर्वोत्तम समझने योग्य हैं ?'



सिद्धने कहा—ब्रह्मन् ! वे ही देश, जनपद, आश्रम और पर्वत पुष्पकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके बीचसे होकर नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी बहती है। गङ्गाजीका सेवन करके जीव जित उतम गतिको प्राप्त करता है, वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और त्यागसे भी नहीं मिल सकती। जिन देहाचार्योंके शरीर गङ्गाजीके जलसे भीगते हैं अथवा मरनेपर जिनकी हड्डियाँ गङ्गाजीमें डाली जाती हैं, वे कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिरते। जिन मनुष्योंके सम्पूर्ण कार्य गङ्गाजलसे ही सम्पन्न होते हैं, वे मरनेके बाद पृथ्वीका निवास छोड़कर स्वर्गमें विराजमान होते हैं। जो जीवन्की पहली अवस्था में पापकर्म करके पीछे भी गङ्गाजीका सेवन करते हैं, वे भी उतम गतिको प्राप्त करते हैं। गङ्गाके पवित्र जलसे स्नान करके जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, उन पुरुषोंके पुष्पकी जंसी बृद्धि होती है, वंसी संकड़ों पत्र करनेसे भी नहीं हो सकती। मनुष्यकी हड्डी जितने व्यर्थकर गङ्गाजलमें पड़ी रहती है, उतने हजार वर्षोंतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जैसे धूम उदयकासमें घने अन्धकारको विदीर्ण करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजलमें स्नान करनेवाला पुरुष अपने पापोंको नष्ट करके सुसोमित होता है। जो देश और दिशाएँ

कल्याणमय जलसे वञ्चित हैं, वे विना चाँदनीकी रात और पुष्पहीन वृक्षकी भाँति शोभा नहीं पातीं। जैसे सूर्यके बिना आकाशकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार गङ्गासे रहित देश और दिशाएँ भी श्रीहीन जान पड़ती हैं। तीनों लोकमें जो कोई प्राणी है, वे सभी गङ्गाके उत्तम जलसे तर्पण करनेपर अत्यन्त तृप्त होते हैं। जो मनुष्य सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए गङ्गाजलका पान करता है, वह गायके गोबरसे निकले हुए जौकी लप्सी खानेवाले पुण्यसे अधिक पवित्र माना जाता है। एक मनुष्य शरीरका शोधन करनेवाले एक हजार चान्द्रायणव्रतका आचरण करे और दूसरा केवल गङ्गाजीके जलका पान करे तो उन दोनोंमें शायद ही समानता हो। एक हजार युगोंतक एक पैसे खड़ा होकर तपस्या करनेवाला पुरुष एक महीनेतक गङ्गास्नान करनेवाले पुरुषकी बराबरी कर सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। एक मनुष्य दस हजार युगोंतक नीचे सिर करके वृक्षमें लटका रहे और दूसरा इच्छानुसार गङ्गाजीके तटपर निवास करे तो पहलेकी अपेक्षा दूसरा ही श्रेष्ठ है। जैसे आगमें डाली हुई रूई तुरंत जलकर भस्म हो जाती है, उसी तरह गङ्गामें गोता लगानेवाले मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसारमें जो लोग दुःखोंसे व्याकुल होकर अपने लिये कोई आश्रय ढूँढ़ रहे हैं, उन सबके लिये गङ्गाके समान दूसरा कोई सहारा नहीं है। जैसे गरुड़को देखते ही सम्पूर्ण सर्पोंके विष सूड़ जाते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे छूटकारा पा जाता है। जगत्में जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्मकी शरण नहीं ली है, उनका आधार और उन्हें शरण देनेवाली श्रीगङ्गाजी ही हैं। वे ही उसका कल्याण करनेवाली तथा वे ही कबचकी भाँति उसे सुरक्षित रखनेवाली हैं। जो नीच अनेकों बड़े-बड़े अशुभ पापोंसे प्रस्त होकर नरकमें पहुँचनेवाले हैं, वे भी यदि गङ्गाकी शरणमें आ जाते हैं तो ये मरनेके बाद उनका उद्धार कर देती हैं। जो सदा गङ्गामें स्नान करने जाया करते हैं, वे निश्चय ही मुनियों तथा इन्द्र आदि देवताओंके समान माने जाते हैं। विनय और सदाचारसे हीन, अमङ्गलकारी तथा नीच मनुष्य भी गङ्गाकी शरणमें जानेपर शिवस्वरूप हो जाते हैं। जैसे देवताओंको अमृत, पितरोंको स्वधा और नागोंको सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्योंके लिये गङ्गाजल ही पूर्ण तृप्तिका साधन है। जैसे भूछे हुए बच्चे माताके पास जाते हैं, उसी प्रकार कल्याण चाहनेवाले प्राणी गङ्गाजीकी उपासना करते हैं। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकोंसे श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसे ही स्नान करनेवाले पुरुषोंके लिये गङ्गा

ही सब नदियोंमें श्रेष्ठ कही गयी है। जो मनुष्य गङ्गाके तीरकी मिट्टी अपने मस्तकमें लगाता है, वह अज्ञानाद्यकारका नाश करनेके लिये सूर्यके समान निर्मल स्वरूप धारण करता है। गङ्गाकी तरङ्गमालाओंका चुम्बन करके बहनेवाली वायु जब मनुष्यके शरीरका स्पर्श करती है, उसी समय वह उसके सारे पापोंको नष्ट कर देती है। दुःखोंसे संतप्त होकर मृत्युकी घड़ियाँ गिननेवाला मनुष्य भी यदि गङ्गाजीका दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है। गङ्गाके तटपर निवास करनेसे जो सुख—जो आनन्द मिलता है, वह स्वर्गमें रहकर सम्पूर्ण भोगोंका अनुभव करनेसे भी नहीं मिल सकता। मन, वाणी और क्रियाद्वारा होनेवाले पापोंसे प्रस्त मनुष्य भी यदि गङ्गाजीका दर्शन करे तो वह परमपवित्र हो जाता है, इस विषयमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। गङ्गाजीका दर्शन, उनके जलका स्पर्श तथा उनके भीतर डुबकी लगानेसे मनुष्य सात पीढ़ीतक आगे होनेवाली संतानोंको और सात पीढ़ी तपा उससे भी ऊपरके पितरोंका उद्धार कर देता है।

जो पुरुष गङ्गाजीका माहात्म्य सुनता, उनके तटपर जानेकी अभिलाषा करता, उनका दर्शन करता, जल पीता, स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनों कुलोंका भगवती गङ्गा उद्धार कर देती है। गङ्गाजी अपने दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा नामकीर्तनमात्रसे सैकड़ों और हजारों पापियोंको तार देती हैं। जो पुरुष अपना जन्म, जीवन तथा अपनी विद्याको सफल करना चाहता हो उसे गङ्गाके तटपर जाकर देवताओं और पितरोंका तर्पण करना चाहिये। मनुष्य गङ्गास्नान करके जिस अक्षय फलको प्राप्त करता है वह पुत्र, धन तथा किसी क्रियाके द्वार नहीं मिल सकता। जो शक्ति रहते हुए भी पवित्र जलवाली कल्याणमयी गङ्गाका दर्शन नहीं करते, वे जन्मके अंधे, लुजे और मुँदके समान हैं। भूत, वर्तमान और भविष्यके ज्ञाता महर्षि तथा इन्द्र आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं और विद्वान् ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसी गङ्गाजीका कौन मनुष्य आश्रय न लेगा ? जो मनुष्य प्राण निकलते समय मन-ही-मन गङ्गाजीका स्मरण करता है, उसे परमपतिकी प्राप्ति होती है। जो जीवनपर्यन्त गङ्गाकी उपासना करता है, उसे मय देनेवाले पापोंसे तनिक भी भय नहीं होता। आकाशसे गिरती हुई जिन परमपवित्र गङ्गाजीकी भगवान् शंकरने अपने सिरपर धारण किया तथा जिन्होंने तीन निर्मल भागोंसे प्रवाहित होकर तीनों लोकोंकी शोभा बढ़ायी है, उनके जलका सेवन

करनेवाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। (गंगाजीमें भक्ति रखनेवाले पुरुषको) माता, पिता, पुत्र, स्त्री और धनका वियोग होनेसे भी उतना दुःख नहीं होता जितना गङ्गाके विछोहले होता है। गङ्गाजीके बरानसे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी धनमें भ्रमण करने, अमीष्ट विषयोंको भोगने तथा पुत्र और धन पानेसे भी नहीं होती। जो गङ्गाजीमें धन्दा रखता, उन्हींमें मन लगाता, जहाँके पास रहता, उन्हींका आश्रय लेता तथा भक्तिपूर्वक उन्हींका अनुसरण करता है, वह भगवती भागीरथीका प्रिय होता है। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्गमें रहनेवाले छोटे-बड़े सभी प्राणियोंको सदा गङ्गाजीमें स्नान करना चाहिये। यही सत्पुरुषोंका सबसे उत्तम कार्य है। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, विश्वा और विद्विशाओमें भी जिनकी क्याति फँती हुई है, सरिताओंमें श्रेष्ठ उन भगवती भागीरथीके जलका सेवन करनेके सभी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। जो दूसरे मनुष्योंको 'ये गङ्गाजी हैं' ऐसा कहकर उनका दर्शन कराता है, उसके लिये भगवती भागीरथी ही प्रतिष्ठा (असय पद प्रदान करनेवाली) हैं। वे कार्तिकेय और सुवर्णको अपने गर्भमें धारण करनेवाली, पवित्र जलकी धारा बहानेवाली और पाप दूर करनेवाली हैं। वे आकाशसे पृथ्वीपर उतरी हुई हैं। उनका जल सम्पूर्ण जगत्के लिये पेय है। उनमें प्रातःकाल स्नान करनेसे धर्म, अर्थ, काम तीनों धर्मोंकी सिद्धि होती है। गङ्गाजी गिरिराज हिमालयकी कन्या, भगवान् शंकरकी पत्नी तथा स्वर्ग और पृथ्वीकी शोभा हैं। वे भ्रमण्डलपर निवास करनेवाले प्राणियोंका कल्याण करनेवाली, परम शौभाग्यवती तथा तीनों लोकोंको पुण्य प्रदान करनेवाली हैं। श्रीभागीरथी मधुका श्रोत एवं पवित्र जलकी धारा बहाती हैं। जलते हुए धीकी ज्वालाके समान उनका प्रकाश है। वे अपने भीतर स्नान-संख्या आदि करनेवाले ब्राह्मणों और उद्दाल तरंगोंके द्वारा सुशोभित होती हैं। वे सबसे पहले स्वर्गलोकसे नीचेकी ओर चलतीं, उस समय भगवान् शंकरने उन्हें अपने निररध धारण किया। फिर हिमालय पर्वतपर आकर बहति वे इस पृथ्वीपर उतरी हैं। श्रीगङ्गाजी स्वर्गकी जननी हैं। सबका कारण, सबसे श्रेष्ठ, रजोगुणसे रहित, अत्यन्त सूक्ष्म, मरे हुए प्राणियोंके लिये सुखद शय्या, पवित्र जलका श्रोत बहानेवाली, परा देनेवाली, जगत्को रक्षा करनेवाली, सत्स्वरूपा तथा सिद्धगणोंकी अमीष्ट देवी भगवती गङ्गा अपने भीतर स्नान करनेवालीके लिये स्वर्गका भाग्य धन जाती हैं। क्षमा, रक्षा तथा धारण करनेमें पृथ्वीके समान और तेजमें अग्नि तथा सूर्यके समान शोभा पानेवाली गङ्गाजी स्वामी कार्तिकेयकी माननीया माता हैं और

ब्राह्मणजातिपर अनुग्रह करनेके कारण ब्राह्मण भी उनका सदा सम्मान करते हैं। श्रवणियोंके द्वारा जिनकी स्तुति होती है, जो भगवान् विष्णुके घरगोष्ठे उत्पन्न, अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जलसे बरी हुई हैं, उन भगवती भागीरथीकी मनसे भी शरण लेनेवाले मनुष्य ब्रह्मदामको प्राप्त होते हैं। जैसे माता अपने पुत्रोंको स्नेहभरी दृष्टिसे देखती है, वैसे ही गङ्गाजी सदात्मभावसे अपने आश्रयमें आये हुए प्राणियोंको कृपादृष्टिसे देखकर उन्हें सर्वगुणसम्पन्न लोक प्रदान करती हैं। इसलिये जो ब्रह्मलोकको प्राप्त करनेको इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने मनको धाममें करके सदा मातृभावसे गङ्गाजीकी उपासना करनी चाहिये। जो अमृतमयी, दूध देनेवाली गौके समान सबको पुष्ट करनेवाली, सय कुण्ड देनेवाली, सम्पूर्ण जगतके उपयोगमें अनेवाली, अन्न देनेवाली तथा पर्वतोंको धारण करनेवाली हैं, श्रेष्ठ पुरुष जिनका आश्रय लेते हैं और जिन्हें ब्रह्माजी भी प्राप्त करना चाहते हैं, उन भगवती गङ्गाजीका मोलाभिलाषी पुरुषोंको अवश्य आश्रय लेना चाहिये। राजा भागीरथ अपनी उग्रतपस्थाने भगवान् शंकरसहित सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करके गङ्गाजीको इस पृथ्वीपर ले आये। उनकी शरण जानेसे मनुष्यको इस लोक और परलोकमें भय नहीं रहता।

ब्रह्मन्। मैंने अपनी बुद्धिसे सोचकर यहाँ गङ्गाजीके गुणोंका एक अंश बतलाया है। मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन कर सकूँ। कदाचित् पूरा यत्न करनेसे भेदगिरिके रत्नों और समुद्रके पानीकी माप बतायी जा सकती है, किन्तु गङ्गाजलके गुणोंका वर्णन करना असम्भव है। अतः मैंने बड़ी धन्दाके साथ जो ये गङ्गाजीके गुण बतलाये हैं, उनपर विश्वास करके मन, वाणी, क्रिया, भक्ति और धन्दाके साथ तुम उनकी आराधना करो। इससे तुम बहुत शीघ्र बुलंभ सिद्धि प्राप्त कर और तीनों लोकोंमें अपने पराका विस्तार कर गङ्गाजीकी सेवासे प्राप्त हुए अमीष्ट लोकोंमें इच्छानुसार विचरोगे। महान् प्रभाववाली भगवती भागीरथी तुम्हारी और मेरी बुद्धिको सदा स्वधर्मानुकूल गुणोंसे युक्त करे। श्रीगङ्गाजी बड़ी भक्तवत्सला हैं, वे संसारमें अपने भक्तोंको मुक्ति बनाती हैं।

भौमज्जी कहते हैं—पुण्डित्ठ। वह उत्तम बुद्धिवाला परम तेजस्वी सिद्ध तिलोच्छब्दिके द्वारा जीविका चलानेवाले उस ब्राह्मणसे विषयमा गङ्गाजीके धाममें गुणोंका नामा प्रकाशसे वर्णन करके आकाशमें अन्तर्धान हो गया और वह ब्राह्मण उसके उपदेशसे गङ्गाजीके माहात्म्यको ज्ञानकर उनकी विधिबद्ध उपासना करके परम बुलंभ सिद्धिको प्राप्त

कल्याणमय जलसे वञ्चित हैं, वे विना चांदनीकी रात और पुष्पहीन वृक्षकी भाँति शोभा नहीं पातीं। जैसे सूर्यके बिना आकाशकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार गङ्गासे रहित देश और दिशाएँ भी श्रीहीन जान पड़ती हैं। तीनों लोकमें जो कोई प्राणी है, वे सभी गङ्गाके उत्तम जलसे तर्पण करनेपर अत्यन्त तृप्त होते हैं। जो मनुष्य सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए गङ्गाजलका पान करता है, वह गायके गोबरसे निकले हुए जौकी लप्सी खानेवाले पुरुषसे अधिक पवित्र माना जाता है। एक मनुष्य शरीरका शोधन करनेवाले एक हजार चान्द्रायणव्रतका आचरण करे और दूसरा केवल गङ्गाजीके जलका पान करे तो उन दोनोंमें शायद ही समानता हो। एक हजार युगोंतक एक परसे खड़ा होकर तपस्या करनेवाला पुरुष एक महीनेतक गङ्गास्नान करनेवाले पुरुषकी बराबरी कर सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। एक मनुष्य दस हजार युगोंतक नीचे सिर करके वृक्षमें सटका रहे और दूसरा इच्छानुसार गङ्गाजीके तटपर निवास करे तो पहलेकी अपेक्षा दूसरा ही श्रेष्ठ है। जैसे आगमें डाली हुई रूई तुरन्त जलकर भस्म हो जाती है, उसी तरह गङ्गामें गोता लगानेवाले मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसारमें जो लोग दुःखोंसे व्याकुल होकर अपने लिये कोई आश्रय ढूँढ़ रहे हैं, उन सबके लिये गङ्गाके समान दूसरा कोई सहारा नहीं है। जैसे गरुड़की देखते ही सम्पूर्ण सर्पोंके विष भङ्ग जाते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। जगत्में जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्मकी शरण नहीं ली है, उनका आधार और उन्हें शरण देनेवाली श्रीगङ्गाजी ही हैं। वे ही उसका कल्याण करनेवाली तथा वे ही कवचकी भाँति उसे सुरक्षित रखनेवाली हैं। जो नीच अनेकों बड़े-बड़े अशुभ पापोंसे ग्रस्त होकर नरकमें पड़नेवाले हैं, वे भी यदि गङ्गाकी शरणमें आ जाते हैं तो वे मरनेके बाद उनका उद्धार कर देती हैं। जो सदा गङ्गामें स्नान करने जाया करते हैं, वे निश्चय ही मुनियों तथा इन्द्र आदि देवताओंके समान माने जाते हैं। विनय और सदाचारसे होन, अमङ्गलकारी तथा नीच मनुष्य भी गङ्गाकी शरणमें जानेपर शिवस्वरूप हो जाते हैं। जैसे देवताओंको अमृत, पितरोंको स्वधा और नागोंको सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्योंके लिये गङ्गाजल ही पूर्ण तृप्तिका साधन है। जैसे भूखे हुए बच्चे माताके पास जाते हैं, उसी प्रकार कल्याण चाहनेवाले प्राणी गङ्गाजीकी उपासना करते हैं। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकोंसे श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसे ही स्नान करनेवाले पुरुषोंके लिये गङ्गा

ही सब नदियोंमें श्रेष्ठ कही गयी है। जो मनुष्य गङ्गाके तीरकी मिट्टी अपने मस्तकमें लगाता है, वह अज्ञानांधकारका नाश करनेके लिये सूर्यके समान निर्मल स्वरूप धारण करता है। गङ्गाकी तरङ्गमालाओंका चुम्बन करके बहनेवाली वायु जब मनुष्यके शरीरका स्पर्श करती है, उसी समय वह उसके सारे पापोंको नष्ट कर देती है। दुःखोंसे संतप्त होकर मृत्युकी घड़ियाँ गिननेवाला मनुष्य भी यदि गङ्गाजीका दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है। गङ्गाके तटपर निवास करनेसे जो सुख—जो आनन्द मिलता है, वह स्वर्गमें रहकर सम्पूर्ण भोगोंका अनुभव करनेसे भी नहीं मिल सकता। मन, वाणी और क्रियाद्वारा होनेवाले पापोंसे ग्रस्त मनुष्य भी यदि गङ्गाजीका दर्शन करे तो वह परमपवित्र हो जाता है, इस विषयमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। गङ्गाजीका दर्शन, उनके जलका स्पर्श तथा उनके भीतर डुबकी लगानेसे मनुष्य सात पीढ़ीतक आगे होनेवाली संतानोंको और सात पीढ़ी तथा उससे भी ऊपरके पितरोंका उद्धार कर देता है।

जो पुरुष गङ्गाजीका माहात्म्य सुनता, उनके तटपर जानेकी अभिलाषा करता, उनका दर्शन करता, जल पीता, स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनों कुलोंका भगवती गङ्गा उद्धार कर देती हैं। गङ्गाजी अपने दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा नामकीर्तनमात्रसे सैकड़ों और हजारों पापियोंको तार देती हैं। जो पुरुष अपना जन्म, जीवन तथा अपनी विद्याको सफल करना चाहता हो उसे गङ्गाके तटपर जाकर देवताओं और पितरोंका तर्पण करना चाहिये। मनुष्य गङ्गास्नान करके जिस अक्षय फलको प्राप्त करता है वह पुत्र, धन तथा किसी क्रियाके द्वारा नहीं मिल सकता। जो शक्ति रहते हुए भी पवित्र जलवाली कल्याणमयी गङ्गाका दर्शन नहीं करते, वे जन्मके अंधे, लुंजे और मुर्खके समान हैं। मृत, वर्तमान और भविष्यके ज्ञाता महर्षि तथा इन्द्र आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं और विद्वान् ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसी गङ्गाजीका कौन मनुष्य आश्रय न लेगा ? जो मनुष्य प्राण निकलते समय मन-ही-मन गङ्गाजीका स्मरण करता है, उसे परमगतिकी प्राप्ति होती है। जो जीवनपर्यन्त गङ्गाकी उपासना करता है, उसे भय देनेवाले पापोंसे तनिक भी भय नहीं होता। आकाशसे गिरती हुई जिन परमपवित्र गङ्गाजीको भगवान् शंकरने अपने सिरपर धारण किया तथा जिन्होंने तीन निर्मल मार्गोंसे प्रवाहित होकर तीनों लोकोंकी शोभा बढ़ायी है, उनके जलका सेवन

करनेवाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। (गंगाजीमें भक्ति रखनेवाले पुण्यको) माता, पिता, पुत्र, स्त्री और धनका वियोग होनेसे भी उतना दुःख नहीं होता जितना गङ्गाके विछोहसे होता है। गङ्गाजीके दर्शनसे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी धनमें भ्रमण करने, अमीष्ट विषयोंको भोगने तथा पुत्र और धन पानेसे भी नहीं होती। जो गङ्गाजीमें श्रद्धा रखता, उन्हींमें मन लगता, उन्हींके पास रहता, उन्हींका आश्रय लेता तथा भक्तिपूर्वक उन्हींका अनुसरण करता है, वह भगवती भागीरथीका प्रिय होता है। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्गमें रहनेवाले छोटे-बड़े सभी प्राणियोंको सदा गङ्गाजीमें स्नान करना चाहिये। यही सत्युत्पांका सबसे उत्तम कार्य है। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, विरा और विदिराओंमें भी जिनकी रथाति फंली हुई है, सरिताओंमें श्रेष्ठ उन भगवती भागीरथीके जलका सेवन करके सभी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। जो ब्रह्मसे मनुष्योंको 'ये गङ्गाजी हैं' ऐसा कहकर उनका दर्शन कराता है, उसके लिये भगवती भागीरथी ही प्रतिष्ठा (अस्य पद प्रदान करनेवाली) हैं। वे कार्तिकेय और सुवर्णको अपने गर्भमें धारण करनेवाली, पवित्र जलकी धारा बहानेवाली और पाप दूर करनेवाली हैं। वे आकाशसे पृथ्वीपर उतरी हुई हैं। उनका जल सम्पूर्ण जगत्के लिये पेय है। उनमें प्रातःकाल स्नान करनेसे धर्म, अर्थ, काम तीनों वर्गोंकी सिद्धि होती है। गङ्गाजी गिरिराज हिमालयकी कन्या, भगवान् शंकरकी पत्नी तथा स्वर्ग और पृथ्वीकी शोभा हैं। ये भूमण्डलपर निवास करनेवाले प्राणियोंका कल्याण करनेवाली, परम सौभाग्ययती तथा तीनों लोकोंको पुण्य प्रदान करनेवाली हैं। श्रीभागीरथी मधुका श्रोत एवं पवित्र जलकी धारा बहाती हैं। जलते हुए धीकी ज्वालाले समान उनका प्रकाश है। वे अपने भीतर स्नान-संध्या आदि करनेवाले ब्राह्मणों और उत्ताल तरंगोंके द्वारा मुशोभित होती हैं। ये सबसे पहले स्वर्गलोकसे नीचेके ओर चलें, उस समय भगवान् शंकरने उन्हें अपने सिरपर धारण किया। फिर हिमालय पर्वतपर जाकर यहाँसे ये इस पृथ्वीपर उतरी हैं। श्रीगङ्गाजी स्वर्गकी जननी हैं। सबका कारण, सबसे श्रेष्ठ, रजोगुणसे रहित, अत्यन्त सूक्ष्म, मरे हुए प्राणियोंके लिये सुखद राग्या, पवित्र जलका श्रोत बहानेवाली, यश देनेवाली, जगत्की रक्षा करनेवाली, सत्स्वरूपा तथा सिद्धगुणोंकी अमोघ देवी भगवती गङ्गा अपने भीतर स्नान करनेवालोंके लिये स्वर्गका मार्ग बन जाती हैं। क्षम, रक्षा तथा धारण करनेमें पृथ्वीके समान और तेजमें अग्नि तथा सूर्यके समान शोभा पानेवाली गङ्गाजी स्वामी कार्तिकेयकी माननीया माता हैं और

ब्राह्मणजातिपर अनुग्रह करनेके कारण ब्राह्मण भी उनका सदा सम्मान करते हैं। श्रवियोंके द्वारा जिनकी स्तुति होती है, जो भगवान् विष्णुके चरणोंसे उत्पन्न, अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जलसे मरी हुई हैं, उन भगवती भागीरथीकी मनसे भी शरण लेनेवाले मनुष्य ब्रह्मात्मको प्राप्त होते हैं। जैसे माता अपने पुत्रोंको स्नेहमयी दृष्टिसे देखती है, वैसे ही गङ्गाजी सर्वतन्मावसे अपने आश्रयमें आये हुए प्राणियोंको कृपादृष्टिसे देखकर उन्हें सर्वगुणसम्पन्न लोक प्रदान करती हैं। इसलिये जो ब्रह्मलोकको प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने मनको यगमें करके सदा मातृभावसे गङ्गाजीकी उपासना करनी चाहिये। जो अभूतमयी, दूध देनेवाली गौके समान सबको पुष्ट करनेवाली, सब कुछ देनेवाली, सम्पूर्ण जगत्के उपमोर्गमें आनेवाली, अन्न देनेवाली तथा पर्वतोंको धारण करनेवाली हैं, श्रेष्ठ पुण्य जिनका आश्रय लेते हैं और जिन्हें ब्रह्माजी भी प्राप्त करना चाहते हैं, उन भगवती गङ्गाजीका मोक्षामिसापी पुण्यको अवश्य आश्रय लेना चाहिये। राजा भगीरथ अपनी उग्र तपस्यासे भगवान् शंकरसहित सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करके गङ्गाजीको इस पृथ्वीपर ले आये। उनकी शरण जानेसे मनुष्यको इस लोक और परलोकमें भय नहीं रहता।

ब्रह्मन् ! मैंने अपनी बुद्धिसे सोचकर यहाँ गङ्गाजीके गुणोंका एक अंश बतलाया है। मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन कर सकूँ। कदाचित् पूरा यत्न करनेसे मेरुगिरिके रत्नों और समुद्रके पानीकी माप बतायी जा सकती है, किन्तु गङ्गाजलके गुणोंका वर्णन करना असम्भव है। अतः मैंने बड़ी श्रद्धाके साथ जो ये गङ्गाजीके गुण बतलाये हैं, उनपर विश्वास करके मन, वाणी, क्रिया, भक्ति और श्रद्धाके साथ तुम उनकी आराधना करो। इससे तुम बहुत शीघ्र बुद्धि प्राप्त कर और तीनों लोकोंमें अपने यशका विस्तार कर गङ्गाजीकी सेवासे प्राप्त हुए अभीष्ट लोकोंमें इच्छानुसार विचरोगे। महान् प्रभाववाली भगवती भागीरथी तुम्हारा और मेरा बुद्धिको सदा स्वधर्मनिकूल गुणोंसे युक्त करे। श्रीगङ्गाजी बड़ी भक्तवत्सला हैं, ये संसारमें अपने भक्तोंको सुखी बनाती हैं।

भोष्मजी कहते हैं—सुधिष्ठिर ! वह उत्तम बुद्धिवाला परम तेजस्वी सिद्ध गामोऽष्टवृत्तिके द्वारा जीविका धरानेवाले उस ब्राह्मणसे त्रिपथगा गङ्गाजीके यथार्थ गुणोंका नामा प्रकाशसे वर्णन करके आकाशमें अन्तर्धान हो गया और वह ब्राह्मण उसके उपदेशसे गङ्गाजीके माहात्म्यको जानकर उनकी विधिबत् उपासना करके परम बुद्धि प्राप्त

हुआ। कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार तुम भी पराभवितके साथ सदा गङ्गाजीकी उपासना करो; इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भीष्मजीके

द्वारा कहे हुए श्रीगङ्गाजीकी स्तुतिसे युक्त इस इतिहासको सुनकर भाइयोंसहित राजा युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई। गङ्गाके स्तवनसे युक्त इस पवित्र इतिहासका जो श्रवण या पाठ करेगा, वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा।

राजा वीतहव्यको ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेकी कथा

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! आप बुद्धि, विद्या, सदाचार, शील और सब प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न हैं। आपकी अवस्था भी सबसे बड़ी है। संसारमें आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जिससे सब प्रकारके प्रश्न पूछे जा सकें; अतः यह बतानेकी कृपा कीजिये कि क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र किस उपायसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है? कौन-सी तपस्या, किस कर्मका अनुष्ठान अथवा किस शास्त्रके अध्ययनसे ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हो सकती है ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! क्षत्रिय आदि तीन वर्णोंके लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है।

युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! आप तो कहते हैं कि ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति कठिन है, किंतु मैंने (आपहीसे) सुना है कि पूर्वकालमें विश्वामित्र क्षत्रियसे ब्राह्मण हुए थे तथा यह भी सुना जाता है कि राजा वीतहव्यने भी ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था; अतः आप बताइये, किस वरदान अथवा तपस्यासे राजाको ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हुई ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! महायशस्वी राजर्षि वीतहव्यने जिस प्रकार दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, उसका वृत्तान्त सुनो। पूर्वकालमें धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेवाले महात्मा मनुके एक धर्मात्मा पुत्र हुआ, जिसका नाम था शर्याति। शर्यातिके वंशमें राजा वत्स हुआ, उसके हैहय और तालजङ्घनामक दो पुत्र हुए। ये दोनों ही राजा थे। हैहय (का ही दूसरा नाम वीतहव्य था, उस) के दस स्त्रियाँ थीं, उनके गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए, जो युद्धसे पीछे न हटनेवाले और शूरवीर थे। उन दिनों काशीमें हर्यश्व नामसे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे, जो दिवोदासके पितामह थे। वीतहव्यके पुत्रोंने हर्यश्वके राज्यपर चढ़ाई की और उन्हें गङ्गा-यमुनाके बीच (प्रयागके निकट) युद्धमें मार डाला। तदनन्तर हर्यश्वके पुत्र सुदेवका, जो देवताके समान तेजस्वी और दूसरे धर्मके समान धर्मात्मा था, काशीके राज्यपर अभियेक किया गया; किंतु वीतहव्यके पुत्रोंने आकर उसे भी संग्राममें मौतके घाट उतार दिया।

इसके बाद सुदेवका पुत्र दिवोदास काशीका राजा बनाया गया, उस महातेजस्वीने जब मनको वशमें रखनेवाले वीतहव्यके पुत्रोंका पराक्रम सुना तो इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसीनामकी नगरी बसायी। इसका घेरा गङ्गाजीके उत्तर तटसे लेकर गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैला हुआ था। इसके भीतर बसी हुई वाराणसी नगरी इन्द्रकी अमरावतीके समान शोभा पा रही थी। उसमें निवास करते हुए राजा दिवोदासपर भी हैहयवंशी राजाओंने धावा किया। तब महाबली और तेजस्वी राजा दिवोदासने पुरीसे बाहर निकलकर शत्रुओंके साथ लोहा लियो। दोनों ओरकी सेनाओंमें एक हजार दिन (दो वर्ष नौ महीने दस दिन) तक देवासुर-संग्रामके समान भयंकर युद्ध होता रहा। इसमें राजा दिवोदासके बहुत-से वाहन और सिपाही काम आये, उनका खजाना खाली हो गया और वे बड़ी वयनीय अवस्थामें पड़ गये। अन्तमें अपनी राजधानी छोड़कर वे भाग चले और (प्रयागमें) भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचकर दोनों हाथ जोड़े उनके शरणागत हो गये। बृहस्पतिनन्दन भरद्वाजजी बड़े शीलवान् और दिवोदासके पुरोहित थे। राजाको उपस्थित देखकर उन्होंने पूछा—'महाराज ! तुम्हें यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ी ? अपना सारा समाचार बतलाओ। तुम्हारा जो भी प्रिय कार्य होगा, उसे मैं निःसंदेह पूर्ण करूँगा।'

राजाने कहा—भगवन् ! वीतहव्यके पुत्रोंने मेरे वंशका नाश कर डाला, मैं अकेला ही भागकर आपकी शरणमें आया हूँ।

यह सुनकर महाभाग भरद्वाज मुनिने कहा—'सुदेवनन्दन ! तुम डरो मत। मैं एक यज्ञ करूँगा, उससे तुम्हें ऐसे पुत्रकी प्राप्ति होगी, जिसकी सहायतासे तुम हजारों वीतहव्यके पुत्रोंको मार डालोगे।' यह कहकर भरद्वाज मुनिने राजाके लिये पुत्रेष्टिनामक यज्ञ किया। उसके प्रभावसे दिवोदासके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो संसारमें प्रतर्दनके नामसे प्रसिद्ध था। वह पैदा होते ही इतना बड़ गया कि तुरंत तेरह वर्षकी अवस्थाका-सा दिखायी देने लगा। उसी समय उसने अपने मुखसे सम्पूर्ण वेद और धनुर्वेदका गान किया।

भरद्वाज मुनिने उसे योगशक्तिते सम्पन्न कर दिया और उसके शरीरमें सम्पूर्ण जगत्का तेज भर दिया ।

तदनन्तर, राजकुमार प्रतर्दनने अपने शरीरपर कंबुच और धनुष धारण किया, उस समय देवविगण उसका यश गाने लगे । वह ढाल और तलवार बाँधकर अपना धनुष टंकारता हुआ आगे बढ़ा । उसे देखकर राजा दिवोदासको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने प्रतर्दनको युवराज बनाकर अपनेको कृतकृत्य समझा । इसके बाद दिवोदासने शत्रुदमन प्रतर्दनको वीतह्वयके पुत्रोंका यश करनेके लिये भेजा । पिताकी आज्ञा पाकर वह शत्रुविजयी घोर हैहयनगरीकी ओर चला और रथपर बैठे-ही-बैठे गङ्गाके पार होकर तुरंत ही वहाँ पहुँच गया । उसके रथकी घोर घरघराहट सुनकर विचित्र ढंगसे युद्ध करनेवाले हैहयराजकुमार कबचसे सुसज्जित होकर नगराकार विशाल रथोंपर बैठे हुए पुरीसे बाहर निकले और बाणोंकी वर्षा करते हुए प्रतर्दनपर चढ़ आये । तब उस तेजस्वी राजकुमारने अपने अस्त्रोंकी वर्षासे शत्रुओंके अस्त्रोंको रोक दिया और वज्र एवं अग्निके समान प्रज्वलित बाणों तथा भल्लोंसे उनके मस्तक काट डाले । हैहयवीर खूनसे लथपथ होकर संकड़ों और हजारोंकी संख्यामें घराशायी हो गये । उस समय वे जड़से कटे हुए पुष्पित पलासके वृक्षोंके समान बिलामी थे रहे थे ।

पुत्रोंके मारे जानेपर राजा वीतह्वय नगर छोड़कर भाग गये और भृगुजीके आश्रमपर जाकर उन्होंने महर्षिको शरण ली । भृगुजीने राजाको अभयदान दे दिया । इतनेहीमें उनके पीछे लगा हुआ राजकुमार प्रतर्दन भी वहाँ आ पहुँचा और आश्रममें जाकर बोला—'इस आश्रमपर महात्मा भृगुके शिष्य कौन-कौन हैं ? वे लोग उनके पास जाकर मेरे आगमनकी सूचना दें, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ ।' महात्मनि भृगुको जब प्रतर्दनके आगमनका समाचार मिला तो उन्होंने आश्रमसे बाहर आकर उसका विधिवत् सत्कार किया और पूछा—'राजेन्द्र ! बताओ मुझसे क्या काम है ?' राजकुमारने उनसे अपने आनेका कारण बतलाते हुए कहा—'ब्रह्मन् ! राजा वीतह्वयको यहाँसे निकाल दीजिये, इनके पुत्रोंने मेरे समस्त कुलका विध्वंस किया है, कारीका सारा

प्राप्त उजाड़ डाला है और वहाँकी रत्न-राशि भी लूट ली है । इन्हें अपने पराक्रमका बड़ा घमंड था; किंतु इनके लो पुत्रोंको मैंने मौतके घाट उतार दिया । अब इनका भी यश करके मैं पिताके ऋणसे उच्छ्रम हो जाऊँगा ।' यह सुनकर



धर्मात्माओंमें धेच्छ महर्षि भृगुने क्यासे इवित होकर कहा—'यहाँ तो कोई भी क्षत्रिय नहीं है, ये सब-के-सब ब्राह्मण ही हैं ।' सत्यवादी भृगुका यह वयार्थ बचन सुनकर प्रतर्दनने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और अत्यन्त प्रसन्न होकर धीरेसे कहा—'भगवन् ! यदि ऐसी बात है तो भी मैं कृतार्थ हो गया; क्योंकि मेरे पराक्रमसे इस राजाको अपनी जाति त्याग देनी पड़ी । अब आप मुझे जानेकी आज्ञा दें और मेरे कल्याणका चिन्तन करें ।'

भृगुजीने प्रतर्दनको जानेकी आज्ञा दे दी और वह जंते आया पा बैठे ही लौट गया । इस प्रकार भृगुजीके बचन-भावसे राजा वीतह्वय ब्रह्मर्षि हो गये । क्षत्रिय होकर भी भृगुकी कृपासे उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हो गयी ।

नारदजीका भगवान् श्रीकृष्णको पूज्य पुरुषके लक्षण बताना और उशीनरद्वारा शरणागत कपोतकी रक्षा

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! इस त्रिभुवनमें कौन-कौनसे मनुष्य पूज्य होते हैं ? इसका विस्तारसे वर्णन कीजिये । आपकी बातें सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती ।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें देवर्षि नारद और भगवान् श्रीकृष्णका संवादरूप इतिहास सुनो । एक समयकी बात है, देवर्षि नारदजी हाथ जोड़कर उत्तम ब्राह्मणोंकी पूजा कर रहे थे । उन्हें ऐसा करते देखकर भगवान् श्रीकृष्णने पूछा—‘भगवन् ! आप किनको नमस्कार कर रहे हैं, आपके हृदयमें जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है तथा आप भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, ऐसे लोगोंका परिचय यदि मेरे सुननेयोग्य हो तो बताइये ।’

नारदजीने कहा—गोविन्द ! जो लोग वरुण, वायु, आदित्य, पर्जन्य, अग्नि, रुद्र, स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, बृहस्पति, चन्द्रमा, जल, पृथ्वी और सरस्वतीको सदा प्रणाम करते हैं, वे मेरे प्रणम्य हैं । तपस्या ही जिनका धन है, जो वेदोंके ज्ञाता और सब वेदोक्त कर्मका अनुष्ठान करनेवाले हैं, उन परमपूजनीय पुरुषोंकी ही मैं सर्वदा पूजा करता रहता हूँ । जो भोजनसे पहले देवताओंकी पूजा करते, अपनी झूठी बड़ाई नहीं करते, संतुष्ट रहते और क्षमाशील होते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ । जो क्षमावान्, जितेन्द्रिय और मनपर फावू रखनेवाले हैं, जो विधिपूर्वक यज्ञानुष्ठान और सत्य, धर्म, पृथ्वी तथा गौओंकी पूजा करते हैं, वे मेरे नमस्कारके योग्य हैं । जो वनमें फल-मूलका भोजन करते हुए तपस्यामें लगे रहते हैं, किसी प्रकारका संग्रह नहीं रखते और क्रियानिष्ठ होते हैं, उनके सामने मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ । जो माता-पिता आदि पोष्यवर्गका भरण-पोषण करनेमें समर्थ हैं, जिन्होंने सदा अतिथि-सेवाका व्रत ले रक्खा है तथा जो देवयज्ञसे बचे हुए अन्नको ही भोजन करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ । जो वेदका अध्ययन करके दुर्द्वय और बोलनेमें कुशल होते हैं, ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ानेमें लगे रहते हैं, उनको मैं सदा पूजा किया करता हूँ । जो नित्यशः सम्पूर्ण प्राणियों-पर प्रसन्न रहते और सबेरेसे दोपहरतक वेदका स्वाध्याय करते हैं, वे मेरे पूज्य हैं । जो गुरुको प्रसन्न रखने और स्वाध्याय करनेके लिये सदा यत्नशील रहते हैं, जिनका व्रत कभी भंग नहीं होने पाता, जो गुरुजनोंकी सेवा करते और किसीके भी दोष नहीं देखते, उनको मैं प्रणाम करता हूँ ।

जो सुन्दर व्रतका पालन करनेवाले, मननशील, सत्यप्रतिज्ञ और हव्य-कव्यको ग्रहण करनेवाले हैं, वे मेरे नमस्कारके योग्य हैं । जो गुरुकुलमें रहकर भिक्षासे जीवननिर्वाह करते हैं, तपस्यासे जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो कभी धन और सुखकी चिन्ता नहीं करते, उनके आगे मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ ।

यदुनन्दन ! जिनके मनमें ममता नहीं है, जो द्वन्द्वोंसे परे हो गये हैं, जिन्होंने सर्वस्वके साथ लज्जाका भी परित्याग कर दिया है, जिन्हें इस संसारमें कोई प्रयोजन नहीं है, जो वेदकी शक्ति पाकर दुर्द्वय, प्रवचन करनेमें कुशल और ब्रह्मवादी हैं, जिन्होंने अहिंसा और सत्यका व्रत ले रक्खा है तथा जो इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रहके साधनमें संलग्न रहते हैं, वे मेरे प्रणामके योग्य हैं । जो गृहस्थ ब्राह्मण कपोत-वृत्तिसे रहते हुए सदा देवता और अतिथियोंकी पूजामें संलग्न रहते हैं, उनके चरणोंमें मैं मस्तक झुकाता हूँ । जिनके कार्योंमें धर्म, अर्थ और काम तीनोंका निर्वाह होता है, किसी एककी भी हानि नहीं होने पाती तथा जो सदा शिष्टाचारमें संलग्न रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ । जो ब्राह्मण शास्त्र-ज्ञानसे सम्पन्न, त्रिवर्गका सेवन करनेवाले, लोभहीन और पुण्यशील होते हैं, वे मेरे वन्दनीय हैं । जो नाना प्रकारके व्रतोंका पालन करते हुए केवल पानी या हवा पीकर रह जाते हैं तथा जो सदा यज्ञशेष अन्नका ही भोजन करते हैं, उनके चरणोंमें मैं प्रणाम करता हूँ । जो स्त्री-परिग्रहसे रहित हैं, जिन्होंने अग्निहोत्रका आश्रय लिया है, वेद ही जिनका सबसे बड़ा सहारा है तथा जो सब प्राणियोंको आश्रय देते हैं, उन्हें मैं वन्दनीय मानता हूँ । जो लोकका कल्याण करनेवाले, संसारमें सबसे श्रेष्ठ, कुलमें उत्तम, अज्ञानका नाश करनेवाले तथा सूर्यके समान जगत्को ज्ञानालोक प्रदान करनेवाले हैं, उनके सामने भी मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ ।

इसलिये भगवान् श्रीकृष्ण ! आप भी सदा ब्राह्मणोंकी पूजा कीजिये । जो सबका अतिथि-सत्कार करते हैं, गौ, ब्राह्मण और सत्यपर प्रेम रखते हैं, वे बड़े-से-बड़े संकटक पार हो जाते हैं । जो सदा मनको वशमें रखते किसीके दोषपर दृष्टि नहीं डालते और प्रतिदिन स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं, उनका महान् संकटसे उद्धार हो जाता है । जो सब देवताओंको प्रणाम करते, एकमात्र वेदका आश्रय लेते, श्रद्धा रखते और इन्द्रियोंको वशमें कर लेते हैं, उनको भी बहुत बड़ी

विपत्तिसि छूटकारा मिल जाता है । जो व्रतका पालन करते हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको नमस्कार करके उन्हें बान देते हैं, वे दुःखसे मुक्त हो जाते हैं । सप्तस्वी, आवास ब्रह्मचारी, तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाले, देवता, अतिथि, पोष्यवर्ग तथा पितरोंका पूजन करनेवाले और यज्ञोप अन्नके भोक्ता पुरुष भी दुर्गम विपत्तियोगि छूट जाते हैं । जो अग्निकी स्थापना करके विधिपूर्वक नमस्कार करते हुए सवा उसे प्रज्वलित रखते हैं तथा जो सोम-यज्ञमें विधिवत् आहुति करते हैं, वे संकटकें पार हो जाते हैं तथा जो आपहीकी भाँति सवा माता, पिता और गुरुजनोंका आदर करते हैं, उनका भी दुःख छूट जाता है ।

यह कहकर नारदजी धुप हो गये । कुन्तीनन्दन ! तुम भी सवा देवता, पितर, ब्राह्मण एवं अतिथियोंकी पूजा करते हो, इसलिये तुम्हें भी मनोवाञ्छित गति प्राप्त होगी ।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! आप सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण हैं, अतः आपहीसे धर्मविषयक बातें सुननेकी इच्छा होती है । अब यह बतानेकी कृपा कीजिये कि जो सोम शरणमें आये हुए अश्वज, पिण्डज, स्वैदज और उज्ज्वज—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी रसा करते हैं, उनको क्या फल मिलता है ?

भीष्मजीने कहा—धर्मनन्दन ! शरणागतकी रसा करनेसे जो महान् फल होता है, उसके विषयमें तुम एक प्राचीन इतिहास सुनो । एक समयकी बात है, एक बाघ किसी सुन्दर कन्नूतरको मार रहा था । वह कन्नूतर बाघके डरसे भागकर महाभाग राजा बृधवर्ध (उशीनर-नरेश) की शरणमें गया । राजाका अन्तःकरण बहुत शुद्ध था । उन्होंने जब उस पशुको भयभीत होकर अपनी गोदमें आया देखा तो उसे धीरज देते हुए कहा—'कपोत ! अब तुम किसी भी पशुका डर नहीं है; किन्तु यह तो बता, तुम यह महान् भय कहाँ और किससे प्राप्त हुआ ? दूने क्या अपराध किया है ? जिससे घबराया हुआ-सा यहाँ आया है । मैं तुझे भय देता हूँ, मेरे पास आ जानेपर अब कोई तुम पर डरनेका विचार भी मनमें नहीं ला सकता । यह काशीका राज्य और अपना जीवनतक तेरी रसाले लिये निछावर कर दूँगा । तू विरवास कर, अब तुम तनिक भी भय नहीं है ।'

इतनेमें बाघ भी यहाँ आकर बीसा—'राजन् ! यह कन्नूतर मेरा भोजन है । इसके मांस, मज्जा, रक्त और मेरेसे मेरा हित होनेवाला है । यह मेरी मूल मिटाकर मेरी पूर्ण वृत्ति का सकता है । आप मेरे और इसके बीचमें न पड़िये । मुझे मूलकी ज्वाला जला रही है, आप इस कन्नूतरको छोड़ देंगे तो मैं अपने लोके चला आ रहा हूँ । मेरे

नालून और परसे यह काफ़ी घायल हो चुका है, अब इसमें कुछ-ही-कुछ साँस बाकी है । आप इसे बचानेकी चेष्टा न कीजिये । अपने देशमें रहनेवाले मनुष्योंकी ही रसा करनेके लिये आप राजा बनाये गये हैं । मूल-न्यासे तपस्ते हुए पंथीको रोकेका आपको कोई अधिकार नहीं है । यदि आपमें शक्ति है तो बंरियों, सेवकों, स्वजनों और इन्द्रियोंके विषयों-पर ही पराक्रम दिखाइये । आकाशधारियोंपर अपना योद्ध न प्रकट कीजिये । यदि धर्मके लिये आप कन्नूतरकी रसा करते हैं तो मुझ भूते पक्षीपर भी आपको दृष्टि डालनी चाहिये । देवताओंनि सनातन कालसे कन्नूतरको बाघका भोजन बना रहला है । प्राचीन कालसे लोग इस बातको जानते हैं कि बाघ कन्नूतर खाते हैं । महाराज उशीनर ! यदि आपको कन्नूतरपर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे कन्नूतरके बराबर अपना ही मांस तराजूपर तोलकर दे दीजिये ।'

राजाने कहा—बाघ ! तुमने ऐसा बात कहकर मुझपर बड़ा अनुग्रह किया । बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा ।

यह कहकर राजा उशीनर अपने मांस काट-काटकर तराजूपर तोलने लगे । यह समाचार सुनकर अन्तःपुरकी रानियाँ बहुत दुःखित हुईं और हाहाकार करती हुई बाहर निकल आयीं । सेवक, मन्त्री और रानियोंके रोनेसे वहाँ मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान महान् कोलाहल मच गया । पहले आसमान साफ था, किन्तु उस समय वहाँ बादलोंकी घटा घिर आयी । राजाका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर पृथ्वी काँप उठी । वे अपनी पतलियों, मुञ्जाओं और आँधोंसे मांस काट-काटकर जल्बी-जल्दी तराजू भरने लगे तथापि वह मांसराशि उस कन्नूतरके बराबर न हुई । जब राजाके शरीरका मांस चूरा गया और रक्तकी धारा बहाता हुआ केवल हड्डियोंका ढाँचाभार रह गया, तब वे मांस काटनेका काम बंद करके स्वयं ही तराजूपर चढ़ गये ।

यह देखकर इन्द्रसहित तीनों लोकके देवता राजा उशीनरके पास आ पहुँचे और आकाश में चढ़े होकर मेरी तथा बुध्नुमी बजाने लगे । देवताओंनि राजा सुवर्धमें (उशीनर) को अमृतसे नहसाया, उनके ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य पुष्पोंकी बारंबार वर्षा की । इतनेहीमें एक विमान उपाहित हुआ । जिसमें सुवर्णके महल बने हुए थे, सोने और मणिपत्तियोंकी बन्दनवारें लगी थीं और बंदुर्धमणिके सन्ने शोभा पा रहे थे । राज्यापि उशीनर उस विमानमें बैठकर सनातन लोकको प्राप्त हुए । युधिष्ठिर ! तुम्हें भी शरणागत प्राणियोंकी इसी प्रकार रसा करनेकी चाहिये । जो मनुष्य अपने प्रकृत, प्रेमी और शरणागत पुरुषोंकी रक्षा करता है तथा सब प्राणियोंपर दया रखता है, वह परलोकमें सुख पाता है ।

राजा सवाचारी होकर सबके साथ सद्बर्ताव करता है, वह अपने कर्मसे किस वस्तुको नहीं प्राप्त कर लेता ? सत्य-पराक्रमी, धीर और शुद्ध हृदयवाले काशीनरेश 'राजापि उशीनर अपने कर्मसे तीनों लोकोंमें विख्यात हो गये ।

यदि दूसरा कोई पुरुष भी इसी प्रकार शरणागतकी रक्षा करेगा तो वह भी उसी गतिको प्राप्त करेगा । राजर्षि वृष-दर्मके इस चरित्रका जो सदा वर्णन और श्रवण करता है, वह पुण्यात्मा होता है ।

ब्राह्मणोंके महत्त्वका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—बाबाजी ! राजाके सम्पूर्ण कर्मोंमें किसका महत्त्व अधिक है ? वह किस कर्मका अनुष्ठान करनेसे इस लोक और परलोकमें सुखी होता है ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! राज्य-सिंहासनपर आसीन होकर अत्यन्त सुख चाहनेवाले राजाके लिये सबसे प्रधान कर्तव्य है ब्राह्मणोंकी सेवा । प्रत्येक राजाको वेदज्ञ ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषोंका सदा आवर करना चाहिये । नगर और प्रान्तमें रहनेवाले बहुश्रुत ब्राह्मणोंको मधुर वाणी बोलकर, उत्तम भोग प्रदान कर तथा सादर नमस्कार करके पूजा करनी चाहिये । राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रोंकी रक्षा करता है, उसी प्रकार ब्राह्मणोंकी भी करे, यही उसका सबसे प्रधान कर्तव्य है । ब्राह्मणों तथा उनके पूज्य पुरुषोंकी भी सुस्थिर चित्तसे पूजा करे; क्योंकि उनके शान्त रहनेपर ही सारा राष्ट्र शान्त एवं सुखी रह सकता है । राजाके लिये ब्राह्मण ही पिताकी भाँति पूजनीय, वन्दनीय और माननीय हैं । जैसे प्राणियोंका जीवन वर्षा करनेवाले इन्द्रपर निर्भर है, उसी प्रकार जगत्की जीवनयात्रा ब्राह्मणोंपर ही अवलम्बित है । ये जिस समय क्रोधमें भर जाते हैं, उस समय वायानलकी लपटोंके समान दाहक दृष्टिसे देखते हैं । इनसे बड़े-बड़े साहसी भी भय मानते हैं; क्योंकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते हैं । इन ब्राह्मणोंमें कुछ तो घाम-भूसते छके हुए कूपकी तरह अपने तेजको छिपाये रहते हैं और कुछ निर्मल आकाशकी भाँति देवीप्यमान होते हैं । कुछ हट्टे होते हैं और कुछ रुईकी तरह फीमल । कोई-कोई ब्राह्मण शैती और गौरवासे जीवन चलाते हैं और कोई भिक्षापर जीवन-निर्वाह करते हैं तथा कितने ही सय प्रकारके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । इस तरह नाना प्रकारके ब्राह्मण देखे जाते हैं । उन धर्मज्ञ एवं सत्पुरुष ब्राह्मणोंका सदा गुण गाना चाहिये । प्राचीन कालसे ही ब्राह्मणलोग देवता, पितर, मनुष्य, नाग और राक्षसोंके पूजनीय हैं । इनमेंसे कोई भी ब्राह्मणोंको जीत नहीं सकता । ब्राह्मण चाहें तो जो देवता नहीं है उसे देवता बना दें और देवताको

भी देवत्वसे भ्रष्ट कर दें । वे जिसे राजा बनाना चाहें वही राजा रह सकता है । जिसे राजाके रूपमें न देखना चाहें उसका पराभव हो जाता है । राजन् ! मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ, जो भूलें मनुष्य ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं, उनका निःसंदेह नाश हो जाता है । ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं, उस पुरुषका अम्बुदय होता है और जिसको वे शाप देते हैं, उसका एक क्षणमें पराभव हो जाता है । शक, यवन, काम्बोज आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय ही थीं; किंतु ब्राह्मणोंकी उत्तम दृष्टिसे वञ्चित होनेके कारण उन्हें स्तेच्छ होना पड़ा । ब्रविड़, कलिङ्ग, पुलिन्द, उशीनर, कोलि-सर्प और माहिषक आदि क्षत्रिय जातियाँ भी ब्राह्मणोंकी ही कुदृष्टि पड़नेसे शूद्र हो गयीं । ब्राह्मणोंसे हार मान लेनेमें ही कल्याण है, उनको हराना अच्छा नहीं । ब्राह्मणोंकी निन्दा किसी तरह नहीं सुननी चाहिये । जहाँ उनकी निन्दा होती हो वहाँ नीचे मुँह करके चुपचाप बंठे रहना या उठकर चल देना चाहिये । इस पृथ्वीपर कोई भी ऐसा मनुष्य न पंदा हुआ और न पंदा होगा, जो ब्राह्मणके साथ विरोध करके सुखपूर्वक जीवित रहनेका साहस करे । हवाको मूठोंमें पकड़ना, चन्द्रमाको हाथसे छूना और पृथ्वीको उठा लेना जैसे अत्यन्त कठिन काम है, उसी तरह इस पृथ्वीपर ब्राह्मणोंको जीतना दुष्कर है ।

इसलिये राजाओंको चाहिये कि उत्तम भोग, आभूषण और दूसरे मनोवाञ्छित पदार्थ वेकर नमस्कार आदिके द्वारा सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करें और पिताके समान उनके पालन-पोषणका ध्यान रखें, तभी राष्ट्रमें शान्ति रह सकती है । अतः तुम्हारे राज्यमें पवित्र और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ब्राह्मण अचक्ष्य रहना चाहिये । कुलीन, धर्मज्ञ और उत्तम व्रत करनेवाले ब्राह्मणको अपने घरमें स्थान देना चाहिये; क्योंकि ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । ब्राह्मणोंकी ही दिये हुए हविष्यको देवतालोग स्वीकार करते हैं । सूर्य, चन्द्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और दिशा—इन सबके अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मणके शरीरमें प्रवेश करके अन्न भोजन करते

हैं। ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते, उसके अन्नको पितर भी नहीं स्वीकार करते। ब्राह्मणसे द्वेष करनेवाले पापी पुष्टपका अन्न देवता भी नहीं ग्रहण करते। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जायें तो देवता और पितर भी सदा प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मणोंको संतुष्ट रखनेवाले पुष्टप मरनेके बाद उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं, उनका नारा नहीं होने पाता। 'मनुष्य जिस-जिस हृदयमें ब्राह्मणोंको वृत्त करता है, उसी-उसीसे देवता और पितरोंको भी वृत्ति होती है। जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, वह यज्ञ आदि कर्म ब्राह्मणोंसे ही सम्पन्न होता है।

जीव जहाँसे उत्पन्न होता है और मरनेके परचात् जहाँ जाता है उस परमात्माको, स्वर्ग और नरकके मार्गको तथा भूत और मविष्यको ब्राह्मण ही जानते हैं। जो अपने धर्मको जानता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। जो लोग ब्राह्मणोंका अनुसरण करते हैं, उनकी कभी पराजय नहीं होती तथा मृत्युके परचात् उनका विनाश नहीं होता। ब्राह्मणके मंहसे निकले हुए वचनको जो सादर स्वीकार करते हैं, वे महारत्ना कभी परामवको नहीं प्राप्त होते। अपने तेज और बलसे तपते हुए क्षत्रियोंके तेज और बल ब्राह्मणोंके सामने आते ही शान्त हो जाते हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणोंने तानजड्डों को, अङ्गिराको संतानोंने नीपवंशी राजाओंको तथा भरद्वाजने हैहयों और इत्तिके पुत्रोंको परास्त किया था। क्षत्रियोंके पास अनेकों प्रकारके आधुप थे तो भी कृष्णमृगचर्म धारण करनेवाले ब्राह्मणोंने उन्हें हरा दिया। संसारमें जो कुछ कहा, सुना या पढ़ा जाता है वह सब काठमें छिपी हुई आगकी तरह ब्राह्मणोंमें ही स्थित है।

इस विषयमें भगवान् श्रीकृष्ण और पृथ्वीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। किसी समय भगवान् श्रीकृष्णने पृथ्वीसे पूछा—'कल्याणी! तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता हो, इसलिये मैं तुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ। गृहस्थ मनुष्य किस कर्मके अनुष्ठानसे अपने पावका नारा कर सकता है?'

पृथ्वीने कहा—इसके लिये मनुष्यको ब्राह्मणोंकी ही सेवा करने चाहिये, यही सबसे पवित्र और उत्तम कार्य है। ब्राह्मणकी सेवा करनेवाले पुष्टपके सम्पूर्ण बोध नष्ट हो जाते हैं। ऐश्वर्य, कीर्ति और उत्तम बुद्धि भी ब्राह्मणसे ही प्राप्त होती है। उत्तम जातिसे सम्पन्न, धर्मज्ञ, उत्तम द्रवका पालन करनेवाले और पवित्र ब्राह्मणकी नित्य सेवा करनी चाहिये। माधव! देखिये ब्राह्मणोंका प्रभाव, उन्होंने चन्द्रमामें कलङ्क लगा दिया, समुद्रका पानी खारा बना दिया तथा इन्द्रके शरीरमें एक हजार भगके चिह्न

उत्पन्न कर दिये और फिर उहाँके प्रभावसे वे भग नेत्रके रूपमें परिणत हो गये; जिनके कारण इन्द्र 'सहस्राक्ष' कहलाते हैं। इमलिये जो कीर्ति, ऐश्वर्य और उत्तम सौर्भोगको प्राप्त करना चाहता हो, उसे ब्राह्मणोंकी आज्ञामें स्थित रहना चाहिये।

भीष्मजी कहते हैं—पृथ्वीके ये वचन सुनकर भगवान् मधुसूदनने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा—'वाह! तुमने बहुत अच्छी बात बतायी।' युधिष्ठिर! ब्राह्मणोंका यह माहात्म्य सुनकर तुम्हें सदा पवित्रभावसे उनको पूजा करनी चाहिये, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। महाभाष्यशाली ब्राह्मण जन्मसे ही समस्त प्राणियोंके चन्दनीम, अतिपि और प्रथम भोजन पानेके अधिकारी हैं। वे सब अपोंको सिद्ध करनेवाले, सबके सुहृद् और देवताओंके मूल हैं तथा पूजित होनेपर वे मङ्गलसमयी थाणोसे आशीर्वाद देकर मनुष्यके कल्याणका चिन्तन करते हैं। पूर्वकालमें प्रजापतिने ब्राह्मण, क्षत्रिय और धर्योंको पूर्ववत् उत्पन्न करके उनको समभाषा, तुमसोगोंके लिये स्वधर्मपालन और ब्राह्मणोंकी सेवाके सिद्धा और कोई कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मणकी रक्षा करनेपर यह स्वयं भी अपने रक्षककी रक्षा करता है। ब्राह्मणको सेवते तुम-सोगोंका कल्याण होगा। विद्वान् ब्राह्मणको शूद्रोचित कर्म नहीं करता चाहिये। शूद्रके कर्म करनेसे उसका धर्म नष्ट होता है। स्वधर्मका पालन करनेसे सन्तो, बुद्धि, तेज और प्रतापमय एश्वर्यकी प्राप्ति होती है तथा स्वाध्यायका अत्यधिक माहात्म्य उपलब्ध होता है। ब्राह्मण आह्वनीय अग्निमें स्थित देवतागणोंको हवनसे तृप्त करके अत्यन्त सीमापशाली होते हैं। द्विजगण। यदि तुमलोग किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करनेसे प्राप्त हुई परम धन्यता द्वारा इन्द्रियसंयम और स्वाध्यायमें लगे रहोगे तो तुम्हारे सारी कामनाएँ पूर्ण होंगी। मनुष्यलोकमें तथा देवलोकमें जो कुछ भोग्य वस्तुएँ हैं, वे सब ज्ञान, नियम और तपस्यासे प्राप्त होनेवाली हैं।

युधिष्ठिर! इस प्रकार ब्राह्मणोंपर कृपा करनेके लिये बुद्धिमान् ब्रह्मजने जो उपदेश दिया था, वह ब्रह्मगीता में तुम्हें सुना बी। मेरुत, डाविड, साट, पोण्डू, कान्वारिारा, शीगिडक, दरद, दावे, खौर, शबर, बयंर, किरात और यवन—ये सब पहले क्षत्रिय थे; किन्तु ब्राह्मणोंके अमर्षसे नीच हो गये। ब्राह्मणोंके तिरस्कारसे अनुर्तिके मधुदने जलमें रहना पड़ा और ब्राह्मणोंकी ही कृपासे देवतानेग स्वर्गके निवासी हुए। जैसे आकाशको धूना, हिमालयको विचलित करना और मेड़ बाँधकर पद्मोंके प्रभाटकी रोक देना असम्भव है, उसी प्रकार इस पृथ्वीपर ब्राह्मणोंकी अंतना

असम्भव है। ब्राह्मणोंसे विरोध करके भूमण्डलका राज्य नहीं किया जा सकता; क्योंकि ब्राह्मण महात्मा और देवताओंके भी देवता हैं। युधिष्ठिर! यदि तुम समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य भोगना चाहते हो तो दान और सेवाके द्वारा सदा ब्राह्मणोंकी पूजा किया करो। दान लेनेसे ब्राह्मणोंका तेज शान्त हो जाता है, इसलिये जो दान नहीं लेना चाहते, उन ब्राह्मणोंसे तुम्हें अपने कुलकी रक्षा करनी चाहिये।

इस विषयमें इन्द्र और शम्बरासुरके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो। एक समयकी बात है, देवराज इन्द्र रजोगुणसम्पन्न जटाधारी तपस्वी बनकर एक बेडौल रथपर सवार हो अपरिचित व्यक्तिके रूपमें शम्बरासुरके पास गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया—‘शम्बरासुर! तुम किस बर्तावसे अपनी जातिवालोंपर शासन करते हो? वे किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? यह ठीक-ठीक बतलाओ।’

शम्बरासुरने कहा—‘मैं ब्राह्मणोंमें कभी दोष नहीं देखता, उनके मतको ही अपना मत समझता हूँ और शास्त्रोंकी बात बतानेवाले विप्रोंका सदा सम्मान करता हूँ—उन्हें सुख देनेकी चेष्टा करता हूँ। सुनकर उनके वचनोंकी अवहेलना नहीं करता, कभी उनका अपराध नहीं करता, उनकी पूजा करके कुशल पूछता हूँ और उनके दोनों चरणोंमें प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साथ बातचीत करते और मेरी कुशल पूछते हैं। ब्राह्मणोंके असावधान रहनेपर भी मैं सदा सावधान रहता हूँ। उनके सोते रहनेपर भी मैं जागता रहता हूँ। वे मुझे शास्त्रीय मार्गपर चलनेवाला, ब्राह्मणभक्त तथा दोषदृष्टिसे रहित जानकर अपने सदुपदेशके अमृतसे सींचते रहते हैं। संतुष्ट होकर वे मुझसे जो कुछ कहते हैं, उसे मैं अपनी बुद्धिके द्वारा ग्रहण करता हूँ। मेरा मन सदा ब्राह्मणोंमें लगा रहता है और मैं सदा उनके अनुकूल विचार रखता हूँ। उनकी वाणीसे

जो उपदेशका मधुर रस प्रवाहित होता है, उसका आस्वादन करता रहता हूँ। इसीलिये नक्षत्रोंपर चन्द्रमाकी भाँति मैं अपनी जातिवालोंपर शासन करता हूँ। ब्राह्मणके मुखसे शास्त्रका उपदेश सुनकर उसके अनुसार बर्ताव करना ही पृथ्वीपर सर्वोत्तम अमृत और सर्वोत्तम दृष्टि है। इस बातको जानकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने महात्मा ब्राह्मणोंकी महिमा देखकर चन्द्रमासे पूछा—‘इन ब्राह्मणोंको किस प्रकार सिद्धि प्राप्त हुई?’

चन्द्रमाने कहा—सम्पूर्ण ब्राह्मण तपस्यासे ही सिद्ध हुए हैं। इनका बल इनकी वाणीमें होता है। पहले गुरुके घरमें ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए क्लेशसहनपूर्वक निवास करके प्रणवसहित वेदका अध्ययन करना चाहिये। फिर अन्तमें श्रेय त्याग कर शान्तभावसे संन्यास ग्रहण करना चाहिये। संन्यासीको सर्वत्र समानदृष्टि रखनी चाहिये। जो सम्पूर्ण वेदोंको अपने पिताके घरमें रहकर पढ़ता है, वह ज्ञानसम्पन्न और प्रशंसनीय होनेपर भी विद्वानोंके द्वारा श्रामीण (गँवार) ही समझा जाता है (वास्तवमें गुरुके घर रहकर वेद पढ़नेवाला ही श्रेष्ठ है)। जैसे साँप बिलमें रहनेवाले छोटे जीवोंको निगल जाता है, उसी प्रकार युद्ध न करनेवाले क्षत्रिय और प्रवास न करनेवाले ब्राह्मणको यह पृथ्वी निगल जाती है। मन्दबुद्धि पुरुषके भीतर जो अभिमान होता है, वह उसकी लक्ष्मीका नाश करता है। गर्भ धारण करनेसे कन्या और सदा घरमें रहनेसे ब्राह्मण दूषित समझे जाते हैं।

मेरे पिताने चन्द्रमासे यह बात सुनकर ब्राह्मणोंका पूजन किया था, उन्हींकी भाँति मैं भी उत्तम व्रत धारण करनेवाले ब्राह्मणोंकी पूजा करता हूँ।

भीष्मजी कहते हैं—दानवराज शम्बरके मुँहसे यह वचन सुनकर इन्द्रने ब्राह्मणोंका पूजन किया, इससे उन्हें महेंद्रपदकी प्राप्ति हुई।

दानपात्र पुरुषोंकी परीक्षा और स्त्री-रक्षाके विषयमें देवशर्मा तथा विपुलकी कथा

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! दानका पात्र कौन होता है अपरिचित पुरुष या बहुत दिनोंतक अपने साथ रहा हुआ अथवा दूर देशसे आया हुआ? इनमेंसे किसे पात्र समझना चाहिये?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! इनमेंसे कोई-कोई अपनी क्रियाके कारण दानका पात्र होता है और कुछ लोग

अपने मौनव्रतके कारण। जो मनुष्य (यज्ञ करने या गुरु-दक्षिणा आदि देनेके उद्देश्यसे) सब कुछ दान कर देनेके लिये किसी वस्तुकी याचना करता है, वह भी दानका पात्र है। कुटुम्बके मनुष्योंको कष्ट न देकर ही दान करना चाहिये। जिनके भरण-पोषणका भार अपने ऊपर है, उनको कष्ट देकर दान करनेवाला मनुष्य अपनेको नीचे गिराता है।

इस प्रकार जो पहलेसे परिचित नहीं है या जो बहुत दिनोंतक साथ रह चुका है अथवा जो दूर देसासे आया हुआ है—इन तीनोंको ही विद्वान् पुद्ग दानपात्र समझते हैं।

युधिष्ठिरने पुद्गा—पितामह ! किसी प्राणीको पीड़ा न पहुँचे और धर्मसे भी बाधा न आने पावे, इस प्रकार दान देना उचित है; किंतु पात्रकी मर्यादा पहचान कैसे हो ? जिससे उसको दान करनेके बाद मनमें परचात्ताप न हो।

भीष्मजीने कहा—बेटा ! ऋत्विक्, पुरोहित, आचार्य, शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव, विद्वान् और द्योयद्विष्टसे रहित पुरुष—ये सभी पूजनीय और माननीय हैं। इनके विपरीत बर्ताव करनेवाले पुरुष सत्कारके योग्य नहीं हैं। अतः स्वयं सोच-विचारकर योग्य पुरुषोंकी परल करनी चाहिये। अक्रोध, सत्यभाषण, अहिंसा, इन्द्रियसंयम, सरलता, द्रोह और अभिमानका अभाव, लज्जा, सहनशीलता और मनो-निग्रह—ये गुण जिनमें स्वभावतः दिलायी दें और कोई बुराई न जान पड़े, वे दान और सम्मानके उत्तम पात्र हैं। जो पुद्ग बहुत दिनोंतक अपने साथ रहा हो, वह भी दानका पात्र है तथा जो तुरंत आया हो, वह परिचित हो या अपरिचित, दान और सम्मान पानेके योग्य है। वेदोंकी अप्रामाणिक मानना, शास्त्रकी आज्ञाका उल्लङ्घन करना और सर्वत्र अशुभकल्या फलाना अपने ही विनाशका कारण है। जो ब्राह्मण अपने पाण्डित्यका अभिमान करके व्यर्थके तर्कका आश्रय लेकर वेदोंको निन्दा करता है, सत्पुरुषोंकी समामें कोरी तर्ककी बातें कहकर विजय पाता, शास्त्रानुकूल युक्तियोंका प्रतिपादन नहीं करता, ओर-ओरसे हत्ला मचाता और बहुत अधिक बोलता है, जो सबपर संदेह करता, बातकों और मूर्खोंका-सा व्यवहार करता तथा कठोर वचन बोलता है, ऐसे पुरुषको अल्पस्य समझना चाहिये। विद्वानोंकी दृष्टिमें वह मनुष्योंमें कुत्तेके समान है। जैसे कुत्ता भूँकने और काटनेके लिये दौड़ता है, इसी प्रकार वह अहंस करने और शास्त्रोंका लण्डन करनेके लिये इधर-उधर दौड़ता फिरता है (ऐसे लोग दानके पात्र नहीं हैं)। मनुष्योंकी जगत्के व्यवहारपर दृष्टि डालनी चाहिये, धर्म और अपने कल्याणके उपायोपर विचार करना चाहिये, ऐसा करनेवाला पुद्ग सदा ही उन्नतिशील होता है। जो (यज्ञ-यागादि करके) देव-ताओंके, (वेदोंका स्वाध्याय करके) ऋषियोंके, (सत्पुरुषकी उल्लंघति तथा धाँध करके) पितरोंके, (दान देकर) ब्राह्मणोंके और (आतिथ्य-सत्कार करके) अतिथियोंके अश्लेषे मुक्त होता और क्रमशः विशुद्ध (निष्काम) एवं विनययुक्त भावसे शास्त्रोक्त कर्मका अनुष्ठान करता है, वह गृहस्थ कर्मी धर्मसे छट नहीं होता।

युधिष्ठिरने पुद्गा—पितामह ! पुद्ग इस संसारमें तपणी स्त्रियोंकी रक्षा किस प्रकार कर सकता है ? जो सत्यको असत्य और असत्यको सत्य बना देती हैं, जो सत्कार करने और न करनेपर भी मनमें बिकार पैदा कर देती हैं, ऐसी स्त्रियोंकी रक्षा कौन कर सकता है ? यदि उनकी रक्षा किसी प्रकार सम्भव हो अथवा किसीने पहले कभी उनकी रक्षा की हो तो उस विषयका स्पष्ट वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—महाबाहो ! तुम स्त्रियोंके विषयमें जैसा कह रहे हो वह ठीक ही है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है। इस विषयमें मैं तुम्हें एक पुराण इतिहास सुना रहा हूँ, जिसमें महात्मा विपुलने जिस प्रकार गृहस्थकी रक्षा की थी, उसीका वर्णन है। वास्तवमें तपणी स्त्रियाँ प्रज्वलित अग्निके समान हैं। ये मयदानवकी बनायी हुई माया हैं। धुरेकी धार, विष, सर्प और अग्नि एक ओर और स्त्रियाँ एक ओर। प्राचीन कालकी बात है, देवदामां नामसे प्रतिष्ठ एक महान् सौम्याणसी ऋषि थे। उनके दक्ष नामकी एक स्त्री थी, जो इस पृथ्वीपर अद्वितीय सुन्दरी थी। उसका रूप देलकर देवता, दानव और गण्यं भी मतवाले हो जाते थे। इन्द्र तो उसपर विशेषरूपसे आसक्त थे। महामुनि देवदामां स्त्रियोंके चरित्रसे मनीमांति परिचित थे और यह भी जानते थे कि इन्द्र बड़ा ही परस्त्रीलम्पट है, इसलिये वे अपनी स्त्रीकी वल्लभ्यं रक्षा करते थे। एक बार उनके भनमें यज्ञ करनेका विचार हुआ। उस समय वे सोचने लगे 'परि में यज्ञमें लग जाऊँ तो मेरी स्त्रीकी रक्षा कैसे होगी ?' फिर मन-ही-मन उसको रक्षाका उपाय निश्चित कर उन महा-तपस्वीने अपने प्रिय शिष्य विपुलको, जो सुगुणोत्तम उत्सव हुआ था, बुलाया और उससे इस प्रकार कहा—'बेटा ! मैं यज्ञ करने जाऊँगा, तुम मेरी स्त्री दक्षकी बसपूषक रक्षा करना; क्योंकि देवदामां इन्द्र सदा इसे प्राप्त करनेकी चाहमें लगा रहता है। उसकी ओरसे तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिये; क्योंकि वह नाता प्रकारके रूप धारण करता है।'

विपुल बड़े ही जितेन्द्रिय और उच्च तपस्वी थे, अग्नि और सूर्यके समान उनकी कान्ति थी तथा वे धर्मके शाता और सत्यवादी थे। मुश्की आज्ञा सुनकर उन्होंने उत्तर दिया—'महत् अश्छा, मैं ऐसा ही करूँगा।' फिर जब गृहजी चलेनेको उद्यत हुए तो विपुलने पुद्गा—'मूने। इन्द्र जब आता है तो कौन-कौनसे रूप धारण करता है ? उसका शरीर और तेज कैसा है ? यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।'

देवदामांने कहा—बेटा ! इन्द्र बड़ा मायावी है, वह बारंबार बहुत-से रूप बदलता रहता है। कभी तो मस्तकपर मुकुट पहने, हाथमें बज्र और धनुष लिये तथा कुशल

धारण किये जाता है और कभी एक ही क्षणमें चाण्डालके समान रूप बना लेता है। कभी हृष्ट-पुष्ट और बड़ा शरीर धारण करता है तथा कभी चिपड़े पहने दीन-दुर्बल देहमें दिखायी देता है। अपने शरीरका रंग भी कभी गौरा, कभी सांबला और कभी काला बना लेता है। एक ही क्षणमें कुरूप हो जाता है और एक ही क्षणमें रूपवान्। कभी बूढ़ा बन जाता है कभी जवान। वह तोते, कौबे, हंस, कोयल, सिंह, व्याघ्र, हाथी, देवता और दंत्य सभीके रूप धारण करता है। मखली और मच्छरतकका रूप धारण करनेमें नहीं चूकता। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। औरोंकी तो बात ही क्या, जिन्होंने इस संसारको बनाया है, वे विधाता भी उसे अपने कावमें नहीं कर सकते। अन्तर्धान हुआ इन्द्र केवल ज्ञानदृष्टिसे दिखायी देता है। इस प्रकार वह बहुत-से रूप धारण किया करता है; इसलिये तुम यत्नपूर्वक मेरी स्त्री रचिकी रक्षा करना, जिससे यज्ञमें रक्खे हुए हविष्यको चाटनेकी इच्छावाले कुत्तेकी भाँति दुरात्मा इन्द्र इसका स्पर्श न करने पावे।

यह कहकर महाभाग देवशर्मा मुनि यज्ञ करनेके लिये चले गये। विपुल गुरुकी बात सुनकर बड़ी चिन्तामें पड़ गये और महाबली इन्द्रसे उस स्त्रीकी खूब चौकसी करने लगे। उन्होंने मन-ही-मन सोचा 'मैं गुरुपत्नीकी रक्षाके लिये क्या उपाय करूँ? इन्द्र मायावी होनेके साथ ही बड़ा दुर्द्धर्ष और पराक्रमी है। आश्रम या कुटीके दरवाजोंको बंद कर देने-मात्रसे उसका आना नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वह कई तरहके रूप धारण करता है। सम्भव है वायुका रूप धारण करके कुटीमें घुस जाय और गुरुपत्नीको दूषित कर डाले। अतः मैं रचिके शरीरमें प्रवेश करके रहूँगा, पुरुषार्थसे इसकी रक्षा नहीं की जा सकती; क्योंकि इन्द्र बहुरूपिया है। योगबलके द्वारा ही मैं रचिकी उससे रक्षा करूँगा। अपने सूक्ष्म अवयवोंसे मैं इसके प्रत्येक अवयवोंमें प्रवेश करूँगा। यदि ऐसा कर सका तो यह मेरे द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य होगा। जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी बूंद उसपर निर्लिप्त भावसे स्थिर रहती है, इसी प्रकार मैं भी अनासक्त भावसे गुरुपत्नीके भीतर निवास करूँगा। मैं रजोगुणसे मुक्त हूँ, मेरेद्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता। जैसे राह चलनेवाला बटोही कभी किसी सूनी धर्मशालामें ठहर जाता है, इसी प्रकार मैं भी सावधान होकर गुरुपत्नीके शरीरमें निवास करूँगा।' इस तरह धर्मपर दृष्टि डाल, वेद-शास्त्रोंपर विचार कर और अपनी तथा गुरुकी प्रचुर तपस्याकी ध्यानमें रखकर विपुलने गुरुपत्नीकी रक्षाका उपर्युक्त उपाय ही निश्चित किया। इसके बाव रचिके पास

बैठकर उन्होंने तरह-तरहकी बातोंमें उसे लगा दिया। फिर अपने दोनों नेत्रोंको उसके नेत्रोंकी ओर लगाया और अपने नेत्रकी किरणोंको उसके नेत्रकी किरणोंके साथ जोड़ दिया तथा उसी मार्गसे आकाशमें प्रविष्ट होनेवाली वायुकी भाँति रचिके शरीरमें प्रवेश किया। तत्पश्चात् वे छायाकी भाँति अन्तर्हित होकर किसी प्रकारकी चेष्टा न करते हुए गुरुपत्नीके शरीरको निश्चेष्ट करके स्थित हो गये और जबतक उनके गुरु यज्ञ समाप्त करके घर न आ गये, तबतक इसी भाँति उसकी रक्षा करते रहे।

तदनन्तर, इसी बीचमें एक दिन दिव्य रूपधारी इन्द्र, यह सोचकर कि यही रचिको प्राप्त करनेका ठीक अवसर है, वहाँ आया और अत्यन्त सुन्दर लुभावना रूप धारण कर आश्रममें घुस गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि विपुलका शरीर चित्रलिखितकी भाँति निश्चेष्ट पड़ा है और उसके नेत्र स्थिर हैं तथा दूसरी ओर मनोहर कटाक्षवाली चन्द्रमुखी रचि बैठी हुई है। रचिने भी जब इन्द्रको उपस्थित देखा तो सहसा उठनेका विचार किया। उनका सुन्दर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मानो अब वह पूछना ही चाहती थी कि 'तुम कौन हो?' विपुलने उसकी उठनेकी इच्छा देख योगबलसे उसको बँकाव कर दिया, जिससे वह हिल-डुल न सकी। तब देवराजने बड़ी मधुर वाणीमें उससे कहा— 'सुन्दरी! मैं देवताओंका राजा इन्द्र हूँ और तुम्हारे ही लिये यहाँतक आया हूँ। तुम्हारा स्मरण करनेसे कामदेव मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, इसीसे तुम्हारे निकट उपस्थित हूँ। अब देर न करो, समय बीता जा रहा है।' इन्द्रकी यह बात गुरुपत्नीके शरीरमें बैठे हुए विपुलने भी सुनी और उन्होंने इन्द्रको देख भी लिया; किन्तु उनके द्वारा स्तम्भित होनेके कारण रचि इन्द्रको कोई उत्तर न दे सकी। गुरुपत्नीका आकार देखकर विपुल उसका मनोभाव ताड़ गये थे, इसलिये उन्होंने योगद्वारा बलपूर्वक उसे नियन्त्रणमें रक्खा और योगसम्बन्धी बन्धनोंसे उसके समस्त इन्द्रियोंको बाँध लिया।

योगबलसे मोहित रचिको निर्विकार देखकर इन्द्रको बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने फिर कहा— 'सुन्दरी! आओ, आओ।' यह सुनकर वह उन्हें कुछ अनुकूल उत्तर देना ही चाहती थी कि विपुलने उसकी वाणीमें उलट-फेर कर दिया। उसके मुँहसे सहसा निकल पड़ा 'अरे! तुम्हारे यहाँ आनेका क्या प्रयोजन है?' परवश होनेके कारण यह उदासीनतापूर्ण वचन कहकर रचि बहुत लज्जित हुई और वहाँ खड़े हुए इन्द्रका मन भी उदास हो गया। उन्होंने रचिके भाव-परिवर्तनको लक्ष्य किया और दिव्यदृष्टिसे जब उसकी ओर

देखा तो उसके शरीरके भीतर बँधे हुए विपुल मूनि दिखायी पड़े। दर्पणमें स्थित प्रतिबिम्बकी भाँति रुचिके देहमें रहकर घोर तपस्यामें संलग्न हुए मुनिको देखकर इन्द्र कोप उठे। शापके डरसे उनका सारा बदन पराँ उठा। तब महातपस्वी विपुल भी गुप्तपत्नीका शरीर त्याग कर अपने शरीरमें आ गये और भयभीत इन्द्रसे बोले—'पापी पुरन्दर ! तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, तू सदा इन्द्रियोंके अधीन रहता है। अब देवता और मनुष्य अधिक कालतक तेरी पूजा नहीं करेंगे। इन्द्र ! क्या तू उस दिनकी बात भूल गया, जब गौतमने तेरे सम्पूर्ण शरीरमें भगका चिह्न बनाकर तुम्हें जीवित छोड़ा था ? क्या तेरे मनमें उस घटनाकी याद अब नहीं रही ? मैं जानता हूँ तू मूर्ख है, तेरा मन धरामें नहीं है और तू महाचञ्चल है। पापी ! दूर हो गइसि; जैसे आया है वैसे ही लौट जा, मैं इस स्त्रीको रक्षा कर रहा हूँ। मुझे तेरे ऊपर दया आती है, इसीलिये अपने तेजसे तुम्हें भस्म करना नहीं चाहता; किन्तु मेरे बुद्धिमान् गुरु बड़े भयंकर हैं, यदि वे तुम्हें देख पावेंगे तो क्रोधसे उद्दीप्त हुए नेत्रोंद्वारा अभी भस्म कर डालेंगे। आजसे कभी ऐसा काम न करना। अन्यथा कहाँ ऐसा न हो कि तुम्हें ब्रह्मचर्यसे पीड़ित होकर पुत्र और मन्त्रियोसहित नाट होना पड़े। यदि तू अपनेको अमर मानकर ऐसे कामोंमें हाथ डालता है तो (मैं तुम्हें सावधान किये देता हूँ) यों कितोका

अपमान न किया कर। तपस्यासे कोई भी कार्य असाध्य नहीं है (तपस्वी अमरोंको भी मार सकता है)।'

भीष्मजी कहते हैं—महात्मा विपुलको ये बातें सुनकर इन्द्र बहुत सज्जित हुए और कुछ उत्तर न देकर चुपचाप अन्तर्धान हो गये। अभी उनके गये एक ही मूहमें बीतने पाया था कि महातपस्वी देवशर्मा इच्छानुसार यत्न पूर्ण करके अपने आश्रमपर लौट आये। गुरुके आनेपर उनका प्रिय कार्य करनेवाले विपुलने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और अपनेद्वारा मुरझित उनकी सती-साध्वी भार्या रुचिको उन्हें सौंप दिया। तत्परचात् शान्तचित्त विपुल फिर पहलेकी ही भाँति निःशङ्कभावसे गुरुकी सेवा करने लगे। जब गुरुजी विश्राम लेकर अपनी पत्नीके साथ बँधे, उस समय विपुलने इन्द्रकी सारी करतूत उन्हें कह सुनायी। यह सुनकर वे प्रतापी मूनि विपुलपर बहुत प्रसन्न हुए और उनके शील, सदाचार, तप, नियम, गुरुसेवा, अपने प्रति भक्ति और धर्ममें निष्ठा देखकर उन्होंने अपने शिष्यको बारबार साधुवाद दिया। तत्परचात् उन धर्मात्मा मूनिने अपने धर्मपरायण शिष्य विपुलसे वर माँगनेके लिये कहा। गुरुको आता पाकर विपुलने कहा—'सदा धर्ममें मेरी स्थिति बनी रहे।' जब गुरुने वह वरदान दे दिया तो विपुल उनकी अनुमति लेकर उत्तम तपस्यामें प्रवृत्त हो गये।


देवशर्माका विपुलको उसके दुरावकी याद दिलाना तथा उसको साथ ले पत्नीसहित स्वर्गमें जाना

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! गुरुपत्नीकी रक्षा और प्रचुर तपस्या करके विपुल समझने लगे—'मैंने दोनों लोक जीत लिये।' तदनन्तर, कुछ समय बीत जानेपर एक दिन एक दिव्य लोककी सुन्दरी अपना मनोहर रूप बनाये आकाशमार्गसे कहीं जा रही थी। उसके शरीरसे कुछ सुन्दर पुष्प, जिनमेंसे दिव्य सुगन्ध आ रही थी, देवशर्माके आश्रमके पास ही जमीनपर गिरे। रुचिने उन पुष्पोंको उठाकर रख लिया। उसकी एक बड़ी बहिन थी, जिसका नाम था प्रभावती। यह अङ्गराज विचरयको ब्याही गयी थी। एक बार उसके यहाँका निमन्त्रण पाकर सुन्दरी रुचि अपने केनामें उन दिव्य फूलोंको रूँयकर अङ्गराजके घर गयी। वहाँ अङ्गराजकी रानीने जब उन फूलोंको देखा तो अपनी बहिनसे बँधे ही फूल भंगथा देनेका अनुरोध किया। आश्रममें लौटनेपर रुचिने बहिनकी कही हुई सारी बातें अपने स्वामीसे

कह सुनायीं। सुनकर रुचिने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और विपुलको बुलाकर फूल सानेका आदेश देते हुए कहा—'तुम शीघ्र ही जाओ।'

महातपस्वी विपुलने गुरुकी आज्ञापर कोई अन्यथा विचार न करके 'बहुत अच्छा' कहकर उसे शिरोधार्य किया और जिस स्थानपर आकाशसे वे फूल गिरे थे वहाँ गये। वहाँ और भी कई फूल पड़े थे जो अभी कुम्हिलाने न थे। उन सुन्दर फूलोंको पाकर विपुलको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें लेकर वे सुरत ही चम्पाके बुधोंसे पिरी हुई चम्पानामक नगरीकी ओर चल दिये। एक निर्जन वनमें आनेपर उन्होंने स्त्री-पुरुषके एक जोड़ेको देखा, जो एक-दूसरेका हाथ पकड़कर गोताकार घूम रहे थे। उनमेंसे एकने अपनी घाम तेज कर दी और दूसरेकी चाल मंद थी। इसपर दोनोंमें मगड़ा होने लगा। एकने कहा—'तुम शीघ्र चलते हो।' दूसरेने

कहा—'नहीं।' इस प्रकार दोनों ही इन्कार करने लगे। ऐसे भगवते हुए दोनोंने विपुलको लक्ष्य करके शपथ खाते हुए कहा—'हम दोनोंमें जो मूठ बोलता हो, उसको परलोकमें वही दुर्गति मिले जो इस विपुलको मिलनेवाली है।' तदनन्तर, विपुलको छः पुरुष दिखायी पड़े, जो सोने-चाँदीके पासे लंकर जूए खेल रहे थे और लोम तथा हृष्यमें मरे हुए थे। वे भी



वही शपथ कर रहे थे, जो पहले स्त्री-पुरुषके जोड़ने की थी। उन्होंने विपुलको लक्ष्य करके कहा—'हम लोगोंमेंसे जो लोभवश बँदमाना करेगा, उसको वही गति मिलेगी जो परलोकमें इस विपुलको मिलनेवाली है।' इनकी बातें सुनकर विपुलने जन्मसे लेकर वर्तमान समयतकके अपने समस्त कर्मोंका स्मरण किया, किंतु कभी कोई पाप हुआ हो ऐसा नहीं जान पड़ा। उधर उन लोगोंकी शपथ सुनकर उनके हृदयमें आग-सी लगी हुई थी; इसलिये वे अपने कर्मोंपर खूब विचार करने लगे। विचारते-विचारते जब कई दिन बीत गये, तब उनके मनमें यह बात आयी कि 'मैंने रचिकी रक्षा करते समय अपनी लक्षणैन्द्रियद्वारा उसको लक्षणैन्द्रियमें और मुखद्वारा उसके मुखमें प्रवेश किया था और यह सच्ची बात भी गुरुसे छिपा ली थी।' युधिष्ठिर! विपुलने अपने मनमें इसीको पाप माना और वास्तवमें बात भी ऐसी ही थी। चम्पानगरीमें जाकर उन्होंने अपने लापे हुए फूल गुरुको

अर्पण कर दिये और उनकी विधिवत् पूजा की। शिष्यको आया देख देवशमनि पूछा—'विपुल! उस महान् वनमें तुमने क्या देखा है?'

विपुलने कहा—'ब्रह्मर्षे! मैंने वहाँ स्त्री-पुरुषका एक जोड़ा और कुछ पुरुष देखे थे; किंतु वे कौन थे जो मुझे अच्छी तरह जानते थे?'

देवशमनिने कहा—'विपुल! तुमने जो स्त्री-पुरुषका जोड़ा देखा था, उसे दिन और रात्रि समझो। वे दोनों चक्रवत् घूमते रहते हैं, उन्हें तुम्हारे पापका पता है तथा जो अत्यन्त हर्षमें भरकर जूए खेलते हुए छः पुरुष दिखायी पड़े थे, उन्हें छः ऋतु जानो। वे भी तुम्हारे पापसे परिचित हैं। मनुष्य कितने ही एकान्तमें छिपकर पाप क्यों न करे, ऋतुएँ और रात-दिन उसे बराबर देखते रहते हैं। तुमने हर्ष और अभिमानमें भरकर गुरुसे अपना पाप-कर्म नहीं बताया था, इसलिये उसकी याद दिलाते हुए उन लोगोंने वैसे बातें कही हैं जैसी कि तुमने सुनी हैं। दिन-रात और ऋतुएँ पुरुषके पाप-गुण्यको सदा जानती रहती हैं। तुमने जो कर्म किया वह मुझे नहीं बतलाया, इसलिये तुम्हें पापकर्म करने-वालोंके लोक मिल सकते थे। किसी तरुणी स्त्रीको पापकर्मसे बचाना तुम्हारे वशकी बात नहीं है, फिर भी तुमने अपनी ओरसे कोई पाप नहीं किया, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। यदि मैं तुम्हारा दुराचार देखता तो निःसंदेह क्रोधमें भरकर शपथ दे देता; किंतु तुमने यथाशक्ति मेरी स्त्रीकी रक्षा ही की है इस कारण मैं तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम सुखपूर्वक स्वर्गमें जा सकोगे।

विपुलसे ऐसा कहकर महर्षि देवशर्माको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी स्त्री तथा शिष्यसहित स्वर्गमें जाकर आनन्दपूर्वक रहने लगे। युधिष्ठिर! बहुत दिन पहलेकी बात है, महामुनि मार्कण्डेयजीने गङ्गाके तटपर वातचीतके प्रसंगमें मुझे यह उपाख्यान सुनाया था। इसीलिये मैं कहता हूँ कि तुम्हें भी सदा यत्नपूर्वक स्त्रियोंकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि उनमें भली और बुरी दोनों तरहकी बातें दिखायी देती हैं। यदि स्त्रियाँ साध्वी एवं पतिव्रता हों तो बड़ी सौभाग्यशालिनी होती हैं। संसारमें उनका आदर होता है और वे सम्पूर्ण जगत्की माता समझी जाती हैं। इतना ही नहीं, वे अपने पातिव्रत्यके प्रभावसे वन और काननोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीको धारण किये रहती हैं। किंतु दुराचारिणी स्त्रियाँ कुलका नाश करनेवाली होती हैं, उनके मनमें सदा पाप ही बसता है। ऐसी स्त्रियोंको उनके शरीरके साथ ही उत्पन्न हुए लक्षणों (हाथ-पैरकी रेखाओं) से पहचाना जा सकता

है। मनुष्यको स्त्रियोंके प्रति न तो विशेष आशक्त होना चाहिये और न उनसे ईर्ष्या ही करनी चाहिये। उदासीनभावसे रहकर धर्मपर दृष्टि रखते हुए ही उनका उपभोग करना

चाहिये। इसके विपरीत बर्ताब करनेवाला मनुष्य मारा जाता है। आत्मिकके बन्धनसे सर्वथा अलग रहना ही सब जगह उत्तम माना गया है।

कन्याके विवाहके सम्बन्धमें विचार

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! जो सम्पूर्ण धर्मोंका, कुटुम्बका, घरका तथा देवता, पितर और अतिथियोंका मूल है, उस कन्यादानके विषयमें कुछ उपदेश कीजिये। सब धर्मोंसे बढ़कर चिन्ताका विषय यही माना गया है कि कैसे पात्रको कन्या देनी चाहिये ?

भीष्मजी कहते हैं—बेटा! सत्युष्योंको चाहिये कि वे पहले बरके स्वभाव, आचरण, विद्या, कुल-भर्यादा और कार्योंकी जांच करें। फिर यदि वह सभी दृष्टियोंसे सुयोग्य प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करें। इस प्रकार योग्य बरको झुलाकर उसके साथ कन्याका ब्याह करना उत्तम ब्राह्मणोंका धर्म—ब्राह्मण-विवाह है। जो बहेज आदिके द्वारा बरको अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है, वह श्रेष्ठ क्षत्रियोंका सनातन धर्म—क्षत्रविवाह कहलाता है। अपने (माता-पिताके) पसंद किये हुए बरको छोड़कर कन्या जिसे पसंद करती हो तथा जो कन्याको चाहता हो ऐसे बरके साथ कन्याका विवाह करना वेदवेत्ताओंके द्वारा गान्धर्वविवाह कहा गया है। कन्याके बन्धु-गान्धर्वोंको लोभमें डाल, बहुत-सा धन देकर जो कन्याको खरीद लिया जाता है, इसे मनीषी पुरुष अमुरोका धर्म (आसुर विवाह) कहते हैं। इसी प्रकार कन्याके अभिभावकोंको धारकर उनके मत्तक काटकर रोती हुई कन्याको घरमेंसे जबरदस्ती पकड़ लाना राक्षसोंका काम (राक्षस-विवाह) है। इन पाँच (ब्राह्म, क्षत्र, गान्धर्व, आसुर और राक्षस) विवाहोंमेंसे पूर्वके तीन विवाह धर्मानुकूल हैं और शेष दो पापमय हैं। आसुर और राक्षस-विवाह कदापि नहीं करने चाहिये *।

* स्मृतियोंमें निम्नलिखित आठ विवाह बतलाये गये हैं—१ ब्राह्म, २ दैव, ३ आर्य, ४ प्राजापत्य, ५ गान्धर्व, ६ आसुर, ७ राक्षस और ८ पंशाच। किन्तु यहाँ १ ब्राह्म, २ क्षत्र, ३ गान्धर्व, ४ आसुर और ५ राक्षस—इन्हीं पाँच विवाहोंका उल्लेख किया गया है। अतः यहाँ जो ब्राह्मण-विवाह है, उसीमें स्मृतिकथित दैव और आर्य-विवाहोंका भी अन्तर्भाव समझना चाहिये। इसी प्रकार यहाँ बताया हुए राक्षस-विवाहमें उपर्युक्त पंशाच विवाहका समावेश कर लेना चाहिये तथा यहाँका क्षत्रविवाह ही स्मृतियोंका प्राजापत्य विवाह है।

जिस कन्याके पिता और माई न हों, उसके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह पुत्रिका धर्मवाली मानी जाती है। (यदि पिता-भ्राता आदि श्रुतमती होनेके पहले कन्याका विवाह न कर दें तो) श्रुतमती होनेके परचात् तीन वर्षतक कन्या अपने विवाहकी बाट देले, चौथा वर्ष सगनेपर वह स्वयं ही किसको अपना पति बना ले, ऐसा करनेसे उसको संतान निकृष्ट नहीं मानी जाती। जो इसके विरुद्ध आचरण करती है, उसकी निन्दा होती है। जो कन्या माताकी सपिण्ड और पिताके गोत्रकी न हो, उसीके साथ विवाह करना मनुजोंने धर्मानुकूल बताया है।†

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! यदि एक मनुष्यने विवाह पक्का करके कन्याका शुल्क (मूल्य) दे दिया हो, दूसरेने शुल्क देनेका वादा करके ब्याह पक्का किया हो, तीसरा उसी कन्याको बसपूर्वक ले जानेकी बात कर रहा हो, चौथा उसके भाई-बन्धुओंको विशेष धनका लोभ दिखाकर ब्याह करनेको तैयार हो और पाँचवाँ उसका पाणिग्रहण कर चुका हो तो धर्मतः वह कन्या किसको पत्नी मानी जायगी ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! कन्याके भाई-बन्धु जिस कन्याको धर्मपूर्वक पाणिग्रहणकी विधिसे दान कर देते हैं अथवा जिसे शुल्क लेकर दे जाते हैं, उस कन्याको धर्मपूर्वक विवाह करनेवाला अथवा शुल्क देकर खरीदनेवाला यदि अपने घर ले जाय तो इसमें किसी प्रकारका दोष नहीं होता। कन्याके कुटुम्बजनोंकी अनुमति मिलनेपर वैवाहिक मन्त्र और होमका प्रयोग करना चाहिये, तभी वे मन्त्र सफल होते हैं। जिसका पिता-माताके द्वारा दान नहीं किया गया, उसके लिये किये गये मन्त्र-प्रयोग सिद्ध नहीं होते। पति और पत्नीमें

† सापिण्ड-निवृत्तिके सम्बन्धमें स्मृतिकान बचन है—
वध्वा वरस्य वा तातः कूटस्थाद् यदि सप्तमः। पञ्चमो चेत्योर्माता तत्सापिण्ड्य निवर्तते॥ अर्थात् 'यदि बर अथवा कन्याका पिता मूल पुरुषसे मातृकी पीढ़ीमें उत्पन्न हुआ है तथा माता पाँचवी पीढ़ीमें पैदा हुई है तो बर और कन्याके लिये सापिण्ड्यकी निवृत्ति हो जाती है।' पिताकी ओरका सापिण्ड्य सात पीढ़ीतक चसता है और माताका सापिण्ड्य पाँच पीढ़ीतक। सात पीढ़ीमें एक तो पिण्ड देनेवाला होता है, तीन पिण्डभागी होने हैं और तीन सेपभागी होने हैं।

जो परस्पर मन्त्रोच्चारणपूर्वक प्रतिज्ञा होती है, वही श्रेष्ठ मानी जाती है और यदि उसके लिये बन्धु-बान्धवोंका समर्थन प्राप्त हो, तब तो और उत्तम है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! यदि एक वरसे कन्या-दानका वादा करके शुल्क ले लिया गया हो और पीछे उससे भी श्रेष्ठ धर्म, अर्थ और कामसे सम्पन्न अत्यन्त योग्य वर मिल जाय तो पहले जिससे शुल्क लिया गया है, उसको कन्या देनेसे इन्कार कर देना चाहिये या नहीं ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! शुल्क देनेमात्रसे ही कोई कन्या किसीकी पत्नी नहीं हो जाती। शुल्क देनेवाला भी इस बातको समझकर ही शुल्क देता है। इसके सिवा जो कन्याका शुल्क लेते हैं, वे धास्तवमें उसका दान नहीं (विक्रय) करते हैं। कन्याके भाई-बन्धु जब वरको किसी विपरीत गुण (वृद्धत्व आदि) से युक्त देखते हैं, तभी शुल्क मांगते हैं। यदि वरको बुलाकर कहा जाय कि तुम मेरी कन्याको गहने पहनाकर विवाह कर लो और ऐसा कहनेपर वह कन्याको आम्रूपण देकर विवाह करे तो यह भी धर्मानुकूल ही है। इस प्रकार कन्याके लिये आम्रूपण लेकर जो कन्यादान किया जाता है, वह न तो शुल्क है और न विक्रय ही। कन्याके लिये कोई वस्तु स्वीकार करके उस (कन्या) का दान करना सनातन धर्म है। जो लोग भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंसे कहते हैं कि 'मैं आपके साथ कन्याका विवाह करूँगा, आपको अपनी कन्या न दूँगा और आपको अवश्य दूँगा' उनकी ये सभी बातें कन्या देनेके पहले नहीं कहेके ही बराबर हैं। महर्षियोंका मत है कि अयोग्य वरको कन्या नहीं देनी चाहिये; क्योंकि सुयोग्य पुरुषको कन्यादान करना ही काम-सम्बन्धी सुख तथा सुयोग्य संतानकी उत्पत्तिका कारण है। कन्याके क्रय-विक्रयमें बहुत तरहके दोष हैं, इस बातको तुम अधिक कालतक सोचने-विचारनेके बाद समझ सकते हो। केवल जीमत देने या लेनेसे ही कोई कन्या किसीकी पत्नी नहीं हो सकती। ऐसी बात पहले भी कभी नहीं हुई थी। यदि कहे, 'शुल्कसे ही पत्नीत्वका निश्चय होता है, केवल पाणिग्रहणसे नहीं' तो यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इसके विरुद्ध स्मृतिका वचन है—'जिसने शुल्क ले लिया हो वह पिता भी दूसरा सुयोग्य वर मिलनेपर उसीका आश्रय ले—उसीके साथ कन्या व्याहे।' जो लोग शुल्कसे ही पत्नीत्वका निश्चय होना स्वीकार करते हैं, पाणिग्रहणसे नहीं, उनके कथनको धर्मज्ञ पुरुष प्रमाण नहीं मानते। कन्याका दान ही लोकमें प्रसिद्ध है, खरीदकर या जीतकर लाना नहीं। कन्यादान ही विवाह कहलाता है। जो लोग जीमत देकर खरीदने या बलात्कारपूर्वक हर लानेको ही पत्नीत्वका कारण मानते हैं, वे धर्मको नहीं जानते।

खरीदनेवालोंको कन्या नहीं देनी चाहिये तथा जो बेचो जा रही हो, ऐसी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये; क्योंकि पत्नी खरीदने-बेचनेकी वस्तु नहीं है। जो दासियोंकी खरीद-विक्री करते हैं, वे बड़े लोभी और पापात्मा हैं; ऐसे ही लोग पत्नीको भी खरीदने-बेचनेका विचार करते हैं। इस विषयमें पूर्वकालके लोगोंने सत्यवानसे प्रश्न किया—'महाप्राज्ञ ! यदि कन्याका शुल्क देनेके पश्चात् शुल्क देनेवालेकी मृत्यु हो जाय तो उसका दूसरेके साथ विवाह हो सकता है या नहीं ?'

उनका यह प्रश्न सुनकर सत्यवानने कहा—'जहाँ उत्तम पात्र मिलता हो वहीं कन्या देनी चाहिये। इसके विपरीत कोई विचार मनमें नहीं लाना चाहिये। शुल्क देनेवाला जीवित हो तो भी सुयोग्य वरके मिलनेपर सज्जन पुरुष उसीके साथ कन्याका व्याह करते हैं। फिर उसके मर जानेपर अन्यत्र करें, इसमें तो संदेह ही क्या है ? कन्याका पाणिग्रहण होनेसे पहलेका वैवाहिक मङ्गलाचार हो जानेपर भी यदि दूसरे सुयोग्य वरको कन्या दे दी जाय तो दाताको केवल मिथ्याभाषणका पाप लगता है (पाणिग्रहणसे पूर्व कन्या विवाहित नहीं मानी जाती है)। सप्तपदीके सातवें पदमें वैवाहिक मन्त्रोंकी समाप्ति होती है अर्थात् सप्तपदीकी विधि पूर्ण होनेपर ही कन्यामें पत्नीत्वकी सिद्धि होती है। जिस पुरुषको जलसे संकल्प करके कन्या दी जाती है, वही उसका पाणिग्रहीता पति होता है और उसीकी वह पत्नी कहलाती है। इस प्रकार विद्वानोंने कन्यादानकी विधि बतलायी है।'

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! जिस कन्याका शुल्क ले लिया गया हो और उसको शुल्क देनेवाला पति मौजूद न हो (परदेश चला गया हो) तो उसके पिताको क्या करना चाहिये ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! यदि संतानहीन धनीसे शुल्क लिया गया है तो पिताका कर्तव्य है कि वह उसके लौटनेतक कन्याको हर तरहसे रक्षा करे। खरीदी हुई कन्याका शुल्क जबतक लौटा नहीं दिया जाता, तबतक वह कन्या शुल्क देनेवालेकी ही मानी जाती है।

युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! जिसके पुत्र नहीं, कन्या है, उसके लिये वही पुत्रके समान है। फिर कन्याके रहते हुए दूसरे लोग उसके धनके अधिकारी कैसे हो सकते हैं ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! पुत्र अपने आत्माके समान है और कन्या तथा पुत्रमें कोई अन्तर नहीं है। फिर आत्म-स्वरूप पुत्रीके रहते हुए दूसरा कोई उसका धन कैसे ले सकता है ? माताको जो दहेजमें धन मिला होता है, उसपर कन्याका ही अधिकार है। अतः जिसके कोई पुत्र नहीं है, उसके धनको पानेका अधिकारी उसका नाती (दौहित्र) ही है; क्योंकि वह

अपने पिता और नागको भी पिण्ड देता है। धर्मकी दृष्टिसे पुत्र और दौहित्रमें कोई भेद नहीं है। यदि पहले कन्या उत्पन्न हुई और वह पुत्ररूपमें स्वीकार कर ली गयी तथा उसके बाद पुत्र भी पैदा हुआ तो वह पुत्र उस कन्याके साथ ही पिताके धनका अधिकारी होता है। (किंतु औरस पुत्रको उस धनका अधिक अंश मिलता है।) यदि दूसरेका पुत्र गोद लिया गया हो तो उस दत्तक पुत्रकी अपेक्षा अपनी सगी बेटो ही श्रेष्ठ मानी जाती है। (अतः वह पैतृक धनके अधिक अंशको अधिकारिणी है) जो कन्याएँ शुल्क लेकर बेच दी गयी हों, उनसे उत्पन्न होनेवाले पुत्र केवल अपने पिताके ही उत्तराधिकारी होते हैं। उन्हें दौहित्रके रूपमें अपने धनका अधिकारी बनाना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता; क्योंकि आमु-र-त्रिवाहसे जिन पुत्रोंकी उत्पत्ति होती है, वे दूसरोंके दौघ देसनेवाले, पापाचारी, पराया धन हड़पनेवाले, शठ तथा धर्मके विपरीत बर्ताव करनेवाले होते हैं। इस विषयमें प्राचीन बातोंको जाननेवाले धर्मज्ञ पुरुष यमकी गायी हुई गायिका इस प्रकार वर्णन करते हैं—'जो मनुष्य अपने पुत्रको बेचकर धन पाना चाहता है अथवा जीविकाके लिये शुल्क लेकर कन्याको बेच देता है, वह अत्यन्त भ्रष्टकर कालसूचक नामक नरकमें पड़कर अपने ही पसिने और मल-मूत्रका भक्षण करता है।' जो किसी कुमारी कन्याको बलपूर्वक अपने घरमें करके उसका उपभोग करते हैं, वे पापी अघकार-पूर्ण नरकमें पड़ते हैं। अपनी संतानकी बात तो दूर रही, किसी दूसरे मनुष्यको भी नहीं बेचना चाहिये। अधर्मके रास्तेसे जो-जो धन आता है, उससे कोई धर्म नहीं होता।

(विवाहके समय कन्याकी समुरालवालोंकी तरफसे) कुमारी-पूजन (कन्याके सत्कार) के रूपमें जो वस्त्र और आभूषण आदि प्राप्त होते हैं, उन्हें स्वीकार करनेमें कोई दौघ नहीं है; किंतु वे सब-के-सब कन्याको दे डालने चाहिये। अपना विशेष कल्याण चाहनेवाले पिता, भाई, श्वशुर और देवरोंको चाहिये कि वे कन्याको वस्त्र, आभूषण आदि देकर

उसका सम्मान करें। यदि स्त्रीको रचि पूर्ण न की जाय तो वह पुष्टको प्रसन्न नहीं कर सकती और उस अवस्थामें पुरुषको संतान-वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिये स्त्रियोंका सदा सत्कार और प्यार करना चाहिये। जहाँ स्त्रियोंका आदर होता है, वहाँ देवतालोग प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। जिस घरमें स्त्रियोंका आदर होता है, वहाँकी सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं। जिस कुलकी यह-बेटियोंको दुःख मिलनेके कारण शोक होता है, उस कुलका नाश हो जाता है। ये नाराज होकर जिन घरोंको शाप दे देती हैं, वे कृत्याद्वारा नष्ट हुएके समान उजाड़ हो जाते हैं; उनकी शोभा, समृद्धि और सम्पत्तिका नाश हो जाता है। महाराज मनुने स्त्रियोंको पुरुषोंके अधीन करके कहा था—'मनुष्यो ! स्त्रियाँ अबला, ईर्ष्यालु, मान चाहनेवाली, कुपित होनेवाली, पतिका हित चाहनेवाली और बिबेकशक्तितसे हीन होती हैं, तथापि ये सम्मानके द्योप्य हैं; अतः तुमलोग सदा इनका सत्कार करना; क्योंकि स्त्री-जाति ही धर्मको प्रान्तिका कारण है। तुम्हारी परिचर्या और नमस्कार स्त्रियोंके ही अधीन हैं। संतानकी उत्पत्ति, उसका शान्तन-यासन और लोकायात्राका प्रसन्नतापूर्वक निर्वाह भी उन्हींपर निर्भर है। यदि तुमलोग स्त्रियोंका सम्मान करोगे तो तुम्हारे सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जायेंगे।'

(स्त्रियोंके कर्तव्यके सम्बन्धमें) राजा जनकको पुत्रोत्पत्ति एक स्त्रीकेका गान किया है, जिसका सारांश इस प्रकार है—'स्त्रीके लिये यज्ञ आदि कर्म, धाढ़ और उपवास करना आवश्यक नहीं है; उसका धर्म है केवल अपने पतिको सेवा करना। नारी पति-सेवासे ही स्वर्गपर विनय प्राप्त करती है।' कुमारावस्थामें स्त्रीकी रक्षा उसका पिता करता है, जबानीमें पति उसका रक्षक है और वृद्ध होनेपर पुत्रपर उसकी रक्षाका भार रहता है; अतः स्त्रीको कभी स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिये। दुग्धित्तर ! स्त्रियों ही घरकी सङ्गी हैं, पुरुषको उनका भलीभाँति सत्कार करना चाहिये। अपने घरमें रखकर पालन करनेसे स्त्री सङ्गीका स्वहृष बन जाती है।

वर्णसंकरोंकी उत्पत्ति तथा कृतक पुत्रका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! यदि मनुष्य धनके लोभसे अथवा कामवशा अन्य वर्णकी स्त्रीके साथ समागम करता है तो वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न हुए वर्णसंकर मनुष्योंका क्या धर्म है? और उनके कर्तव्यकी क्या है ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! पूर्वकालमें प्रजापतिने यज्ञ (धर्म) के लिये केवल चार वर्णों और उनके पुत्र-पुत्रकर्मोंकी ही रचना की थी; किंतु सब वर्णोंमें अष्टम मात्र यदि अपनेसे श्रेष्ठ वर्णोंकी स्त्रियोंके साथ समागम करता है तो उससे उत्पन्न होनेवाला पुत्र चारों वर्णोंसे भ्रष्ट और मनुष्य

निन्दनीय (चाण्डाल आदि) समान्य जाता है। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण-जातिकी स्त्रीके साथ संसर्ग करता है तो उससे वर्ण-बाह्य-पुत्रजातिकी उत्पत्ति होती है, जिसका काम है स्तुति आदि करना। वैश्य जातिका पुरुष ब्राह्मणकी स्त्रीसे समागम करके जिस पुत्रको जन्म देता है, वह सब वर्णोंसे पृथक् वैदेहक और मीढगत्य कहलाता है (उससे अन्तःपुरकी रसा आदिका काम लिया जाता है)। गृध्रद्वारा ब्राह्मणोंके गर्भसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र अत्यन्त भयंकर कर्म करनेवाला चाण्डाल होता है। वह गाँवके बाहर बसता है और उससे वष्य पुरुषोंको प्राणदण्ड आदि देनेका काम लिया जाता है। ये सभी कुला-ङ्गार मनुष्य नीच वर्णोंद्वारा ब्राह्मणोंके गर्भसे जन्म धारण करते और वर्णसंकर कहलाते हैं। वैश्यके द्वारा क्षत्रियजाति-की स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र बंदी और मागध कहलाता है। यह लोगोंकी प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है। इसी प्रकार यदि गृध्र क्षत्रिय-जातिकी स्त्रीके साथ समागम करता है तो उससे मछली मारनेवाले निषाद-जातिकी उत्पत्ति होती है और यदि वह वैश्य जातिकी स्त्रीसे संसर्ग करता है तो आयोगव-जातिका पुत्र उत्पन्न होता है, जो बड़का काम करके जीविका चलाता है। वर्णसंकर भी सब अर्थों जातिकी स्त्रीके साथ समागम करते हैं तो अपने ही समाज वर्णवाले पुत्रोंको जन्म देते हैं और जब अपनेसे हीन जातिकी स्त्रियोंसे संसर्ग करते हैं तो नीच संतानों-की उत्पत्ति होती है। ये संताने अपनी माताकी जातिवाली समानी जाती हैं। इस प्रकार वर्णसंकर मनुष्य भी यदि परस्पर विभिन्न जातिकी स्त्रियोंसे संसर्ग करते हैं तो उनसे निन्दनीय संतानोंकी ही उत्पत्ति होती है। जैसे गृध्र ब्राह्मणोंके गर्भसे चाण्डाल नामक बाह्य जातिवाले पुत्रको उत्पन्न करता है, उसी प्रकार बाह्यजातिका मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंकी स्त्रियोंके साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जातिवाला पुत्र पैदा करता है, वह बाह्यतर कहलाता है। इस प्रकार बाह्य और बाह्यतर जातियोंसे क्रमशः पंडु प्रकारके अत्यन्त निकृष्ट वर्ण पैदा होते हैं। अग्न्या स्त्रीसे समागम करनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं। जिस जातिके पुरुष राजाओंके शृङ्गार आदिका कार्य जानते और दास न होकर भी दासवृत्तिसे जीविका चलाते हैं, वे सैरग्न्य हैं; उनकी स्त्रियाँ सैरग्न्यी कहलाती हैं। मागध जातिकी सैरग्न्यी स्त्रीसे यदि बाह्य जातीय आयोगव पुरुष समागम करे तो उससे आयोगव जातिका सैरग्न्य पुत्र उत्पन्न होता है, उसी (मागधी सैरग्न्यी) का यदि वैदेह जातिके पुरुषसे संसर्ग हो तो मदिरा बनानेवाले मरेयक जातिके पुत्रकी उत्पत्ति होती है। निषादके वीर्य और मगधजातीय सैरग्न्यीके गर्भसे मद्गुर जातिका पुरुष

उत्पन्न होता है, जिसे दास भी कहते हैं। वह नावसे अपनी जीविका चलाता है। चाण्डाल और मागधी सैरग्न्यीके संयोगसे रक्षपाक नामसे प्रसिद्ध अधम चाण्डालकी उत्पत्ति होती है, यह मुर्दोंकी रखवालीका काम करता है। इस प्रकार मगध जातिकी सैरग्न्यी स्त्री आयोगव आदि चार जातियोंसे समागम करके मायासे जीविका चलानेवाले चार प्रकारके क्रूर मनुष्योंको उत्पन्न करती है। आयोगव जातिकी पापिनी स्त्री वैदेह जातिके पुरुषसे समागम करके अत्यन्त क्रूर माया-जीवी पुत्र उत्पन्न करती है, निषादके संयोगसे मद्रनाम नामक जातिको जन्म देती है और चाण्डालके संसर्गसे पुल्कस जातिको उत्पन्न करती है। मद्रनाम जातिके मनुष्य गदहेकी सवारी करते हैं और पुल्कस जातिवाले मुँटोंपर चढ़े हुए कपड़े (कफन) लेकर पहनते और फूटे हुए बर्तनोंमें भोजन करते हैं। इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य आयोगवकी संतान हैं। निषादजातिकी स्त्रीका यदि वैदेहक जातिके पुरुषसे संसर्ग हो तो मृदु, अग्नि और कारावरनामक चमारोंकी उत्पत्ति होती है, ये तीनों जातियाँ गाँवके बाहर रहती हैं। चाण्डाल पुरुष और निषादजातिकी स्त्रीके संयोगसे पाण्डुसौपाक जातिका जन्म होता है, यह जाति बाँसकी डलिया आदि बनाकर जीविका चलाती है। वैदेह जातिकी स्त्रीके साथ निषादका सम्पर्क होनेपर आहिष्णुक और चाण्डालका संसर्ग होनेपर सौपाककी उत्पत्ति होती है। सौपाक और चाण्डालोंकी एक ही ब्रति है। निषादजातिकी स्त्रीमें चाण्डाल (सौपाक) के बीर्यसे अन्तेवसायो नामक जातिका जन्म होता है, इस जातिके लोग सदा श्मशानमें ही रहते हैं। निषाद आदि बाह्यजातिके लोग भी उन्हें अछूत समझते हैं।

इस प्रकार माता-पिताके वर्ण-व्यतिक्रमसे वर्णसंकर जातियाँ उत्पन्न होती हैं। उनमेंसे कुछ प्रकट होती हैं और कुछ गुप्त। इनके कर्मोंसे ही इनकी पहचान करनी चाहिये। शास्त्रमें चारों वर्णोंके ही धर्मका निश्चय किया गया है, औरिके नहीं। धर्महीन वर्णों (वर्णसंकर जातियों) मेंसे किसीकी भी कोई नियत संख्या नहीं है। जो जातिका विचार न करके स्वेच्छानुसार अन्य वर्णोंकी स्त्रियोंसे समागम करते हैं तथा जो यशोंके अधिकार और साधु पुरुषोंसे बहिष्कृत हैं, ऐसे वर्णबाह्य मनुष्योंसे ही वर्णसंकर सन्तानें उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रक्षिके अनुकूल कार्य करके भिन्न-भिन्न प्रकारकी आजीविका तथा आश्रयको अपनाती हैं। ऐसे लोग लोहेके आभूषण पहनकर चौराहोंमें, मरघटमें, पर्वतोंपर और वृक्षोंके नीचे निवास करते हैं। इन्हें चाहिये कि गहने तथा अन्य उपकरणोंको बनावें और अपने कर्मोंसे जीविका चलाते हुए प्रकटरूपमें निवास करें। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि

यदि ये गौ और ब्राह्मणोंकी सहायता करे, कठोरतापूर्ण कर्म त्याग दें, सबपर दया करे, सत्य बोलें, दूसरोंके अपराध क्षमा करे और अपने शरीरको कष्टमें डालकर भी दूसरोंकी रक्षा करे तो इन वर्णसंस्कार मनुष्योंकी भी पारमार्थिक उन्नति हो सकती है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! जो चारों वर्णोंसे बहिष्कृत, वर्णसंस्कार मनुष्यसे उत्पन्न और अनायं होकर भी (ऊपरसे देखनेमें) आर्य-त्वा प्रतीत हो रहा हो, उसको पहचान हमलोग कैसे कर सकते हैं ?

भौष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! जो (सज्जनोके विपरीत) नाना प्रकारकी चेष्टाओंसे युक्त हो, उस कलुषित योगिसे उत्पन्न मनुष्यको उसके कर्मोंसे ही पहचान हो सकती है। इसी प्रकार सज्जनोचित आचरणोंसे योगिकी शुद्धताका निश्चय करना चाहिये। इस जगत्में अनायता, अनाचार, क्रूरता और अकर्मण्यता आदि दोष मनुष्यको कलुषित योगिसे उत्पन्न (वर्णसंस्कार) सिद्ध करते हैं। 'वर्णसंस्कार पुत्र' अपने पिता या माता अथवा धोनेके ही स्वभावका अनुसरण करता है। यह किसी तरह अपनी असत्ययत्तको छिपा नहीं सकता। जैसे बाघ अपनी चिद्र-विचित्र छाल और क्पके द्वारा माता-पिताके समान ही होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी योगिका ही अनुसरण करता है। 'अमुक ऋषित कित कुलमें और किसके धीयेंसे उत्पन्न हुआ है' यह बात अत्यन्त मुक्त होनेपर भी जिसका जन्म संस्कार-योगिसे हुआ है, वह मनुष्य पौंड्रा-बहुत अपने पिताके स्वभावको पाता ही है। जो कृत्रिम मार्गका आश्रय लेकर ध्येष्ट पुरुषोंके अनुसृष्ट आचरण करता है यह यास्तवमें शुद्ध वर्णका है या संस्कारवर्णका, इसका निश्चय करते समय उसका स्वभाव ही सब कुछ बता देता है। संसारके प्राणी नाना प्रकारके आचार-व्यवहारमें सगे हुए हैं। आचरणके सिवा दूसरी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जन्मके रहस्यको साफ तौरपर प्रकट कर सके। वर्णसंस्कारकी शास्त्रीय

बुद्धि प्राप्त हो जाय तो भी वह उसके शरीरको नीचभागोंसे नहीं हटा सकती। उत्तम, मध्यम या निकृष्ट जिस प्रकारके स्वभावसे उसके शरीरका निर्माण हुआ है, वंसा ही स्वभाव उसे आनन्ददायक जान पड़ता है। ऊँची जातिका मनुष्य भी शीलसे रहित हो तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिये और शूद्र भी यदि धर्मज्ञ और सबाचारी हो तो उसका विशेष आबर करना चाहिये। मनुष्य अपने गुणगुण कर्म, शील, आचरण और कुलके द्वारा अपना परिचय देता है। यदि उसका कुल नष्ट भी हो गया हो तो अपने कर्मोंके द्वारा वह फिर उसे शीघ्र ही उज्ज्वलित कर देता है। ऊपर जितनी संकीर्ण योगिन्यां बतलायी गयी हैं, उन सबमें तथा अन्य नीच जातियोंमें विद्वान् पुरुषको संतानोत्पत्ति नहीं करनी चाहिये, उनका सर्वथा परित्याग करना ही उचित है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! कृतक पुत्र कंसा होता है ?

भौष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! माता-पिताने जिते रातेपर त्याग दिया हो और पत्ता सगानेपर भी जिसके माता-पिताका ज्ञान न हो सके, उस बालकका जो पालन करता है, उसीका वह कृतक पुत्र समझा जाता है। वर्तमान समयमें जो उस अनाथ बच्चेका बारिस बनकर पोषण कर रहा हो, उस मनुष्यका वर्ण ही उस बालकका वर्ण होता है।

युधिष्ठिरने पूछा—बाराजी ! ऐसे सङ्केत संस्कार कैसे करना चाहिये ? तथा उसके साथ कित जातिकी कन्याका विवाह करना चाहिये ?

भौष्मजीने कहा—बेटा ! जिसको माता-पिताने त्याग दिया है, वह अपने स्वामी—पासक पिताके वर्णको प्राप्त होता है। इसलिये उसके पालन करनेवालेको चाहिये कि वह अपने ही वर्णके अनुसार उसका संस्कार करे तथा अपनी ही जातिकी कन्यासे उसका ब्याह भी कर दे। इस प्रकार ये सारी बातें मैंने सुन्ने बतायीं, अब और क्या सुनना चाहते हो ?

गौओंके माहात्म्य-वर्णनके प्रसंगमें महर्षि च्यवन और नहुषके संवादकी कथा

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! किसीकी देखने और उसके साथ रहनेपर कित प्रकारका स्नेह होता है तथा गौओंका माहात्म्य क्या है ?

भौष्मजीने कहा—राजन् ! इस विषयमें मैं तुमसे महर्षि च्यवन और नहुषके संवादरूप प्राचीन इतिहासका वर्णन कहूंगा। पूर्वकालकी बात है, भृगुवंशमें उत्पन्न हुए महर्षि च्यवनने अज्ञान धनका आश्रय से उसके भीतर रहना आरम्भ

किया। वे अभिमान, मोघ, हर्ष और शोकका परित्याग करके दृढ़तापूर्वक व्रतका पालन करते हुए बारूट् व्योतक जलके भीतर रहे। उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियों तथा विशेषतः जलबर्तोंपर पूर्ण विश्वास जमा लिया। एक बार वे देवताओंकी प्रणाम करके अत्यन्त पवित्र होकर गङ्गा और यमुनाके जल (संगम) में प्रविष्ट हुए और वहाँ काष्ठकी मूर्ति विद्यमानसे बंध गये। गङ्गा-यमुनाके जलमें

भीषण गर्जना हो रही थी, वे अपने मस्तकपर सहने लगे; किंतु गङ्गा-यमुना आदि नदियाँ और सरोवर ऋषिकी केवल परिक्रमा करते थे, उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते थे। वे कभी पानीके भीतर काठकी नाईं सो जाते और कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते थे। जलमें रहनेवाले जीवोंके वे बड़े प्रिय हो गये थे। इस तरह उन्हें पानीमें रहते बहुत दिन बीत गये। तदनन्तर, एक समय मछलियोंसे जीविका चलानेवाले बहुत-से मल्लाह मछली पकड़नेका निश्चय करके जाल हाथमें लिये हुए, जहाँ वे मुनि थे, उसी स्थानपर आये। उन्होंने बहुत चेष्टा करके गङ्गा और यमुनाके जलमें जाल बिछा दिया। उनका जाल दूरतक फैला और नये सूतका बना हुआ था, उसकी चौड़ाई भी बहुत अधिक थी तथा वह अच्छी तरहसे बनाया हुआ और मजबूत था। थोड़ी देर बाद वे सभी मल्लाह निडर होकर पानीमें उतर गये और सब मिलकर जालको खींचने लगे। उस जालमें उन्होंने मछलियोंके साथ ही दूसरे जल-जन्तुओंकी भी बाँध लिया था। जब जाल खींचा गया तो उसमें मत्स्योंसे घिरे हुये भृगुनन्दन च्यवन मुनि भी खिंच आये। उनका सारा शरीर नदीके सेवारसे भरा हुआ था, उनकी मूँछ, दाढ़ी और जटाएँ हरे रंगकी हो गयी थीं तथा उनके अङ्गुलीमें शङ्ख आदि जलचरोंके नख लगनेसे चित्र-सा बन गया था।

उन वेदोंके पारगामी महर्षिको जालके साथ खिंच आये



देख सभी मल्लाह हाथ जोड़े पृथ्वीपर पड़ गये और चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम करने लगे। उधर जालके आकर्षणसे अत्यन्त खेद, त्रास और स्थलका स्पर्श होनेके कारण बहुत-से मत्स्य मर गये। मुनिने जब मत्स्योंका यह संहार देखा तो उन्हें बड़ी दया आयी और वे वारंवार लंबी साँस खींचने लगे। यह देखकर मल्लाहोंने कहा—'महामुने! हमने अनजानमें जो पाप किया है, उसको क्षमा करके आप हमपर प्रसन्न होइये और बताइये हम आपका कौन-सा प्रिय कार्य करें?' उनके इस प्रकार पूछनेपर मछलियोंके बीचमें बैठे हुए च्यवन मुनिने कहा—'मल्लाहो! इस समय जो मेरा सबसे बड़ा काम है, उसे ध्यान देकर सुनो। यदि ये मत्स्य जीवित रहेंगे तभी मैं जीवन-धारण करूँगा, अन्यथा इनके साथ ही मैं भी प्राण त्याग दूँगा। ये मेरे सहवासी रहे हैं, मैं बहुत दिनोंतक इनके साथ जलमें रह चुका हूँ; अतः अब इन्हें त्याग नहीं सकता।' मुनिकी यह बात सुनकर निपादोंको बड़ा भय हुआ, वे थर-थर कांपने लगे और उनके मुँहका रंग फीका पड़ गया। उसी अवस्थामें जाकर उन्होंने यह सारा समाचार राजा नहुषसे निवेदन किया।

यह समाचार सुनकर और मुनिकी ऐसी अवस्था जानकर राजा नहुष अपने मन्त्री और पुरोहितको साथ ले तुरंत वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने पवित्र भावसे हाथ जोड़कर महात्मा च्यवन मुनिको अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत् पूजा करके कहा—'विप्रवर! बताइये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ?'

च्यवनने कहा—राजन्! मछलीसे जीविका चलानेवाले इन मल्लाहोंने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इन्हें मेरी और इन मछलियोंकी कीमत दीजिये।

नहुषने (पुरोहितसे) कहा—पुरोहितजी! भृगुनन्दन च्यवनजी जैसी आज्ञा दे रहे हैं, उसके अनुसार इनके बदले मल्लाहोंको एक हजार स्वर्णमुद्रा दे दीजिये।

च्यवनने कहा—राजन्! एक हजार स्वर्णमुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है; आप इन्हें उचित मूल्य दीजिये।

नहुषने कहा—पुरोहितजी! आप निपादोंको एक लाख स्वर्णमुद्रा दे डालिये! (फिर च्यवन मुनिको लक्ष्य करके कहा—) भगवन्! यह आपके योग्य मूल्य होगा या आप कुछ और चाहते हैं?

च्यवनने कहा—राजन्! मेरा मूल्य एक लाख मुद्रा न लगाइये। मन्त्रियोंके साथ विचार करके मेरे योग्य कीमत दीजिये।

नहुषने कहा—पुरोहितजी! तो फिर इन मल्लाहोंको

एक करोड़ मुद्रा बीजिये और यदि यह भी योग्य मूल्य न हो तो और अधिक देना चाहिये।

ध्यवनने कहा—राजन् ! एक करोड़ या इससे अधिक मुद्रा भी मेरे योग्य नहीं है। आप ब्राह्मणोंके साथ विचार करके उचित मूल्य बीजिये।

नहुषने कहा—विप्रवर ! यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या समूचा राज्य ही निपादोंको दे डालिये। मेरी सम्मतिमें यह आपके योग्य मूल्य होगा। अथवा आपका क्या विचार है ?

ध्यवनने कहा—आपका आधा या समूचा राज्य भी मैं अपने लिये उचित मूल्य नहीं समझता। आप ऋषियोंके साथ विचार कीजिये और फिर जो मेरे योग्य प्रतीत हो, वही कीमत बीजिये।

भीष्मजी कहते हैं—मुधिष्ठिर ! महर्षिकावचन सुनकर राजा नहुषको बड़ा खेद हुआ। वे मन्त्री और पुरोहितके साथ इस विषयपर विचार करने लगे। इतनेहीमें फल-मूलका भोजन करनेवाले एक वनवासी मुनि, जिनका जन्म गायके पेटसे हुआ था, राजा नहुषके समीप आये और उन्हें सम्बोधित करके कहने लगे—‘महाराज ! ये ऋषि जिस प्रकार संतुष्ट होंगे, यह उपाय मुझे मालूम है। मैं इन्हें बहुत शीघ्र संतुष्ट कर दूंगा।’

नहुषने कहा—महर्षे ! मृगुनन्दन ध्यवन मुनिका, जो इनके योग्य मूल्य हो, यह बतलाइये और हमारे राज्य तथा कुलका उद्धार कीजिये। मैं अपने मन्त्री और पुरोहितके साथ अगाध दुःखके समुद्रमें डूब रहा हूँ। आप नौका बनकर हमें पार लगाइये—इनके योग्य मूल्यका निर्णय कर दीजिये।

भीष्मजी कहते हैं—मुधिष्ठिर ! राजा नहुषकी बात सुनकर वे महाप्रतापी मुनि राजा और उनके मन्त्रियोंको आनन्दित करते हुए बोले—‘महाराज ! ब्राह्मण सब वर्णोंमें उत्तम हैं, उनका और गौरीका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिये आप इनकी कीमतमें एक गौ बीजिये।’ महर्षिकी बात सुनकर मन्त्री और पुरोहितसहित राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वतका पालन करनेवाले मृगुनन्दन ध्यवन मुनिके पास जाकर उन्हें अपनी यागोद्धार तृप्त करते हुए-से बोले—‘ब्रह्मर्षे ! मैंने एक गौ बेकर आपको खरीद लिया, अतः आप उठनेकी कृपा करें। मैं यही आपका उचित मूल्य समझता हूँ।’

ध्यवनने कहा—महाराज ! अब मैं उठता हूँ, अब आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीदा है। मैं इस संसारमें गौरीके समान ब्रह्मरूप कोई धन नहीं समझता। बोरबर ! गौरीके नाम और गुणोंका कीर्तन करना, सुनना, गौरीका

दान देना और उनका दर्शन करना—इनकी शास्त्रोंमें बड़ी प्रशंसा की गयी है। ये सब कार्यं सम्पूर्ण धर्मोंको दूर करने परम कल्याण देनेवाले हैं। गौएँ सन्मीकी जड़ हैं, उनमें पापका लेरा भी नहीं है। गौएँ ही मनुष्योंको भद्र और देवताओंको उत्तम हविष्य देनेवाली हैं। स्वाहा और बघटकार सब गौरीमें ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएँ ही यशका संचालन करनेवाली और उसका मूल हैं। वे विकाररहित दिव्य अमृत धारण करती और ब्रह्मनेपर अमृत ही देती हैं। वे अमृतका आधार होती हैं और सारा संसार उनके सामने मस्तक झुकाता है। इस पृथ्वीपर गौएँ अपने तेज और शरीरमें अग्निके समान हैं। वे महान् तेजकी राशि और समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाली हैं। गौरीका समुदाय जहाँ बेटकर निर्भयतापूर्वक तीर्थ जाता है, उस स्थानकी शोभा बढ़ जाती है और वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है। गौएँ स्वर्गकी सीढ़ी हैं, वे स्वर्गमें भी पुजी जाती हैं। गौएँ समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियाँ हैं, उनसे बड़कर ब्रह्मरूप कोई नहीं है। राजा नहुष ! यह मैंने गौरीका माहात्म्य बतलाया है, इसमें उनके गुणोंके एक अंशका विवरण करामा गया है। गौरीके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता।

निपादोंने कहा—मुने ! सज्जनोंके साथ तो सात पग चलनेमात्रसे मित्रता हो जाती है। हमने तो आपका दर्शन किया और हमारे साथ आपकी इतनी बेरतक बातचीत भी हुई, अतः अब आप हमलोगोंपर कृपा कीजिये। मित्रन् ! हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं और आपके चरणोंमें पड़े हुए हैं। हमपर कृपा करनेके लिये हमारी ही बड़ी यह गौ आप स्वीकार कीजिये।

ध्यवनने कहा—मल्लाहो ! मैं तुम्हारी बी हुई गौ स्वीकार करता हूँ, इस गोदानके प्रभावसे तुम्हारे सब पाप दूर हो गये, अब तुमलोग जलमें घंटा हुई इन मछलियोंके साथ ही स्वर्गको जाओ।

भीष्मजी कहते हैं—तदनन्तर, शुद्ध अन्तःकरणवाले उन महर्षि ध्यवनके प्रभावसे वे मल्लाह मछलियोंके साथ ही स्वर्गको चले गये। उन मल्लाहों और मछलियोंकी स्वर्गकी ओर जाते देख राजा नहुषको बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात् गीते उत्पन्न महर्षि और मृगुनन्दन ध्यवनने राजा नहुषसे ब्रह्मज्ञानपर धर माँगनेकी कहा। तब राजाने प्रसन्न होकर कहा—‘बत, आपकी कृपा ही बहुत है।’ फिर दोनोंके आग्रहसे उन इन्द्रके समान तेजस्वी मरेराने धर्ममें स्थित रहनेका धरदान माँगा और उनके ‘तपास्तु’ ब्रह्मनेपर उन दोनों ऋषियोंका विधिपूर्वक पूजन किया। उसी दिन ध्यवन ऋषिके व्रतकी वीरता समाप्त हुई और वे अपने आश्रमको चले गये। इसके बाद

महातेजस्वी महर्षि गोजात भी अपने आश्रमको पधारे। सबके अन्तमें राजा नहुष भी वर पाकर अपनी राजधानीको चले गये। युधिष्ठिर! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है। दर्शन और सहवाससे कैसा स्नेह होता है,

गौओंका क्या माहात्म्य है तथा धर्मानुकूल निश्चय कैसे किया जाता है—ये सारी बातें इस प्रसंगसे स्पष्ट हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें कौन-सी बात बताऊँ, तुम्हारे मनमें क्या सुननेकी इच्छा है?

राजा कुशिक और च्यवनमुनिका उपाख्यान—मुनिद्वारा राजाके धैर्यकी परीक्षा

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! राजा कुशिकका वंश तो क्षत्रिय था, उससे ब्राह्मण-जातिकी उत्पत्ति कैसे हुई? महात्मा परशुराम और विश्वामित्रका महान् प्रभाव अद्भुत था। राजा कुशिक और महर्षि ऋचीक—ये ही अपने-अपने वंशके प्रवर्तक थे। उनके पुत्र जमदग्नि और गाधिको लाँघकर उनके पौत्र परशुराम और विश्वामित्रमें ही यह विजातीयताका दोष क्यों आया? इसका रहस्य बतलाइये।

भीष्मजीने कहा—भारत! इस विषयमें राजा कुशिक और महर्षि च्यवनके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। पूर्वकालमें भृगुवंशी महर्षि च्यवनको यह बात मालूम हुई कि हमारे वंशमें कुशिक वंशकी कन्याके सम्बन्धसे क्षत्रियत्वका महान् दोष आनेवाला है, यह जानकर उन्होंने कुशिकके समस्त कुलको भस्म कर डालनेका विचार किया और राजा कुशिकके पास जाकर कहा—‘राजन्! मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ कालतक रहना चाहता हूँ।’ यह सुनकर राजाने महर्षिको बँठनेके लिये आसन दिया और स्वयं गडुवा लेकर उन्हें पँर धोनेके लिये जल निवेदन किया। इसके बाद अर्घ्य आदि देनेकी सम्पूर्ण क्रियाएँ पूर्ण कीं। तदनन्तर, उन्होंने शान्तभावसे महर्षिको विधिवत् मधुपर्क भोजन कराया और हाथ जोड़कर कहा—‘भगवन्! हम दोनों पति-पत्नी आपके अधीन हैं। बताइये हम आपकी क्या सेवा करें? राज्य, धन, गौ और यज्ञके निमित्त दान—जो कुछ आप लेना चाहें, वह सब हम देनेको तैयार हैं। मेरा यह महल, यह राज्य और यह राज्यसिंहासन सब आपका है। आप ही राजा हैं, इस पृथ्वीका पालन कीजिये। मैं तो सदा आपकी आज्ञामें रहनेवाला सेवक हूँ।’

राजाके इस प्रकार कहनेपर महर्षि च्यवनने बहुत प्रसन्न होकर कहा—‘राजन्! मुझे राज्य, धन, गौ, देश और यज्ञकी भी इच्छा नहीं है, मेरी बात सुनिये। यदि आप दोनों पसंद करें तो मैं एक नियम आरम्भ करूँगा, उस समय आप लोगोंको सावधानीके साथ निर्भयतापूर्वक मेरी सेवा करनी पड़ेगी।’

मुनिकी बात सुनकर राजदम्पतीको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उत्तर दिया—‘बहुत अच्छा, हम आपकी सेवा करेंगे।’ तदनन्तर, राजा कुशिक महर्षि च्यवनको बड़े आनन्दके साथ

अपने महलके भीतर ले गये और एक सुन्दर कमरा दिखाकर बोले—‘तपोघन! यह शय्या बिछी हुई है, आप इच्छानुसार यहाँ आराम कीजिये। हमलोग यथाशक्ति आपको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करेंगे।’ इस प्रकार बातें होते-होते सूर्यास्त हो गया, तब महर्षिने राजाको अन्न और जल लानेकी आज्ञा दी। ‘जो आज्ञा’ कहकर राजा वहाँसे गये और जो भोजन तैयार था उसे लाकर उन्होंने मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया। मुनिने भोजन करके राजा और रानीसे कहा—‘अब मुझे नींद सता रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तुमलोग मुझे सोते समय न जगाना और सदा जागकर मेरे दोनों पँर दबाते रहना।’ धर्मात्मा कुशिकने निर्भय होकर कहा—‘अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे।’

इस प्रकार राजाको सेवाका आदेश देकर महर्षि च्यवन इक्कीस दिनोंतक एक ही करवटसे सोते रहे और राजा कुशिक अपनी स्त्रीसहित बिना खाये-पीये निरन्तर उनकी सेवामें लगे



रहे। महर्षिको उपासना करनेमें उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। बाईसवें दिन महातपस्वी च्यवनमुनि अपने आप उठे और राजासे कुछ कहे बिना ही महलसे बाहर चले गये। दोनों राजदम्पती भूल और परिभ्रमते दुर्बल हो गये थे तो भी मुनिको आते देख वे उनके पीछे-पीछे गये; किन्तु उन मुनि-श्रेष्ठने उनकी ओर आँख उठाकर देखातक नहीं। उन दोनोंके देखते-देखते महर्षि अन्तर्धान हो गये और राजा खिन्न होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वे किसी तरह अपनेको संभालकर उठे और रानीको साथ ले पुनः मुनिको ढूँढ़नेका प्रयत्न करने लगे। जब कहीं भी महर्षि दिखायी न पड़े तो राजा अपनी स्त्रीसहित पककर लौट आये। उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। नगरमें पहुँचकर वे किसीसे कुछ बोले नहीं, केवल दीन भावसे मुनिके चरित्रपर मन-ही-मन विचार करने लगे। उन्होंने मूने हृदयसे महलमें प्रवेश किया; किन्तु वहाँ जाते ही भृगुनन्दन च्यवनजी उन्हें उसी पलंगपर सोये दिखायी दिये। ऋषिको देखकर वे दोनों बड़े आश्चर्यमें पड़े, उनकी सारी पकावट दूर हो गयी और फिर पहलेकी भाँति वे यथास्थान बँठकर मुनिके पैर दबाने लगे। अबकी बार वे महामुनि दूसरी करवटसे तो रहे थे। जब उतना ही (इबकीस दिनका) समय बीत गया तब वे स्वयं ही जागे। राजा और रानी उनके मयसे शङ्कित थे, अतः उन्होंने अपने मनमें तनिक भी विकार नहीं आने दिया।



जागते ही ऋषिके कृपा—'अब मैं स्नान करूँगा, तुमसोय मेरे शरीरमें तेलकी मालिस करो।' यद्यपि वे दोनों भूल और पकावटसे कुंवल हो गये थे तो भी 'बहुत अच्छा' कहकर आनन्दसे बैठे हुए ऋषिके शरीरमें चुपचाप तेल मलने लगे; किन्तु महातपस्वी च्यवनजीने अपने मुँहसे एक बार भी यह नहीं कहा कि 'बस करो, अब मालिस पूरी हो गयी।' इतनेपर भी जब राजा और रानीके मनमें उन्होंने कोई विकार नहीं देखा तो सहसा उठकर वे स्नानागारमें चले गये। वहाँ स्नानके लिये राजाजिन्हे सामथ्र्य पहलेसे ही तैयार करके रखी गयी थी; किन्तु वे उसका किञ्चित् भी उपयोग न करके राजाके देखते-देखते वहाँ अन्तर्धान हो गये। फिर भी उन दोनों दम्पतीने इसके लिये कोई बुरा नहीं माना। तदनन्तर, ऋषिके स्नान करके पुनः राजा और रानीको बरान दिया। उन्हें आये देख उन दोनोंका मुख प्रसन्नतासे सिल उठा और वे हाथ जोड़कर बोले—'सगवन्! भोजन तैयार है।' मुनिने कहा—'ले आओ।' आशा पाकर दोनों पति-पत्नीने गृहस्थों और वनवासियोंके भोजन करने योग्य भौतिक-भौतिकी सामग्र्यो साकर मुनिके सामने रखी। मुनिने यह सब लेकर शय्या और बिछानों सहित एक स्थानपर रक्खा और उसे उत्तम यज्ञोत्तसे ढक दिया। तत्परचात् भोजन-सामग्र्यसहित उन सब वस्त्रोंमें उन्होंने आग लगा दी और राजा-रानीके देखते-देखते वे फिर अन्तर्धान हो गये; किन्तु इतनेपर भी उन दोनों बुद्धिमान् दम्पतीने शोध नहीं किया। राजर्षि कुशिक सारी रात रानीके साथ चुपचाप बैठे रह गये।

जब इतने प्रयासके बाद भी महर्षि च्यवन राजाका कोई छिद्र न देख सके तो फिर उनसे बोले—'तुम स्त्रीसहित रथमें जाओ और उसमें मुझे बिठाकर मैं जहाँ कूँ वहाँ से चलो।' राजाने निःशङ्क होकर कहा—'बहुत अच्छा।' और वे एक बहुत बड़ा रथ तैयार करके से आये। उसमें बायीं ओर बौद्ध दोनेके लिये रानीको लगाकर स्वयं दाहिनी ओर जात गये। उस रथपर उन्होंने एक ऐसा घायक भी रक्त दिया जिसमें आगेकी ओर तीन शालाएँ थीं और जिसका अग्रभाग सूईकी मोरके समान तीला था। यह सब तैयारी करके उन्होंने मुनिसे पूछा—'सगवन्! बताइये रथ किस ओर चले? जहाँ जानेके लिये आप आशा करें वहाँ आपका रथ जायगा।' राजाके इस प्रकार पूछनेपर च्यवनने कहा—'तुम यहाँसे

गूढ धीरे-धीरे एक-एक कदम उठाकर चलो। यह ध्यान रखते कि मुझे कदम न होने पाये, हर तरहसे आराम पकूँ। साथ ही किसी राहगीरको रास्तेपरसे हटाना नहीं चाहिये। मेने कहा है कि सब लोग हमें रथ छोड़ते देखें और मैं उन्हें

घन वाहें। मार्गमें जो ब्राह्मण मुक्तले कुछ मांगेंगे, उन्हें घन और रत्न आदि सभी मनोवाञ्छित वस्तुएँ दान करूँगा, अतः इन सब बातोंका प्रबन्ध कर लेना।' मुनिकी बात सुनकर राजाने अपने सेवकोंसे कहा—'मुनि जिस-जिस वस्तुके लिये आज्ञा दें, वह सब निःशङ्क होकर देना।' राजाकी इस आज्ञाके अनुसार नाना प्रकारके रत्न, स्त्रियाँ, वाहन, बकरे, भैंसें, सुवर्ण और पर्वताकार गजराज—ये सब मुनिके पीछे-पीछे चले। साथमें राजाके सभी मन्त्री भी थे। उस समय सारा नगर आर्त होकर हाहाकार कर रहा था। इतनेहीमें मुनिने सहसा चायुक उठाया और उसकी तीखी नोकसे राजा और रानीकी पीठ तथा कमरमें प्रहार किया; फिर भी वे निर्विकार भावसे उस रथको खींचते रहे। पचास राततक उपवास करनेके कारण वे अत्यन्त दुर्बल हो गये थे; उनका सारा शरीर कांप रहा था, तथापि वे वीर दम्पती किसी तरह साहस करके उस रथका बोझ ढो रहे थे। उनके शरीरपर चायुककी मारसे अनेकों घाव हो गये थे और उनसे खूनकी धारा बह रही

और रानीका धैर्य भी कँसा अनोखा है। ये इतने थके होनेपर भी कष्ट उठाकर इस रथको खींच रहे हैं और भृगु-नन्दन च्यवन अभीतक इनमें जरा भी विकार नहीं पा सके हैं।'

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! मुनिवर च्यवनजी जब किसी तरह राजा-रानीके मनमें मेल न देख सके तो वे कुबेरकी तरह उनका सारा धन लुटाने लगे, किंतु इस कार्यमें भी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्नताके साथ ऋषिकी आज्ञाका पालन करने लगे। यह सब देखकर मुनिवर च्यवन बहुत संतुष्ट हुए और उस उत्तम रथसे उतरकर उन दोनों दम्पतीको उन्होंने भार ढोनेके कार्यसे मुक्त कर दिया। तदनन्तर, वे स्नेहभरी गम्भीर चाणीमें बोले—'मैं तुम दोनोंको उत्तम वर देना चाहता हूँ, बतलाओ क्या दूँ।' यह कहते हुए उन दोनोंके धायल सुकुमार शरीरोंपर स्नेहवश अमृतके समान कोमल हाथ फेरने लगे। फिर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक राजासे



धी। खूनसे लयपय होनेके कारण वे खिले हुए पलाशके बूझोंकी भांति विलायी देते थे। उनकी यह दशा देखकर पुरयात्तियोंको बड़ा दुःख हो रहा था; किंतु मुनिके शापसे भयभीत होकर कोई कुछ बोल न सके। वे परस्पर कहने लगे—'नाइयो! शुद्ध अन्तःकरणवाले इन महर्षिकी तपस्याका बल तो देखो, इनकी शक्ति अद्भुत है तथा राजा



कहा—'बेटा! गङ्गाका यह सुन्दर तट बड़ा ही रमणीय स्थान है, मैं कुछ देरतक यहाँ व्रत धारण करके रहूँगा। इस समय तुम अपने नगरमें जाओ और अपनी थकावट दूर करके कल सबेरे अपनी स्त्रीके साथ फिर यहाँ जाना। मैं यहीं मिलूँगा, अब तुम्हारे कल्याणका समय आया है। तुम्हारे मनमें जो-जो इच्छा होगी, वह सब पूर्ण हो जायगी।'

प्रसन्न होकर कहा—‘महामाग ! आपने हमलोगोंको पवित्र कर दिया, हम दोनोंकी तपण अवस्था हो गयी तथा हमारा शरीर सुन्दर और बलवान् हो गया । आपने हम दोनोंके शरीरपर चायुक मारकर जो-जो घाव कर दिये थे, वे भी अब नहीं दिखायी देते । मैं तो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया और अपनी इस रानीको भी अम्पराके समान सुन्दरी देख रहा हूँ । यह सब आपकी कृपाका फल है । आप जैसे तपस्वीमें ऐसी शक्तिका होना आश्चर्यकी बात नहीं है ।’ ऐसा कहकर मुनिकी आज्ञा ले राजर्षि कुशिक उन्हें प्रणाम करके नगरकी

ओर चले । उस समय उनके मन्त्री और पुरोहित भी उनके साथ थे । नगरमें प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्निकालकी सम्पूर्ण क्रियाएँ सम्पन्न कीं और स्त्रीसहित भोजन करके रात्रिमें परांगपर शयन किया । उस समय वे मुनिके विये हुए मृतन शरीर और नयी शोभासे युक्त होनेके कारण बहुत प्रसन्न थे । इधर भृगुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले, तपस्याके धनी महर्षि ध्ययनने गङ्गातटके तपोवनको अपने संकल्पद्वारा नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित करके इन्द्रपुरीसे भी बढ़कर सुन्दर और समृद्धिशाली बना दिया ।

ध्वनका कुशिककी स्वर्गीय दृश्य दिखाना, उनके घरमें रहनेका प्रयोजन बतलाना और उनके वंशको ब्राह्मणत्व-प्राप्तिका बरदान देना

भीष्मजी कहते हैं—सुधिष्ठिर ! तदनन्तर, महामना राजा कुशिक यह रात्रि व्यतीत होनेपर जागे और पूर्वाह्निकालके नैमित्तिक निपमोसे निवृत्त होकर अपनी रानीके साथ उस तपोवनकी ओर चल विये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक सुन्दर महल देखा जो नीचेसे ऊपरतक सोनेका बना हुआ था, उसमें मणियोंके हजारों खम्भे सगे हुए थे और यह अपनी शोभासे गन्धर्वनगरको भात कर रहा था । राजाने यहाँ और भी बढ़तेसे विषय पदार्थ देले, कहीं खंदीके शिखरसे सुशोभित पर्वत, कहीं कमलोंसे घरे हुए सरोवर, कहीं प्राति-भातिकी चित्रशालाएँ और बन्दनद्वारे शोभा पा रही थीं । भूमिपर कहीं सोनेका फागँ और कहीं हरी-भरी घासकी बहार थी । अमररश्मिमें बौर सगे हुए थे । केतक, उडालक, अशोक, कुन्द, अतिमुक्त, चम्पा, तिलक, कटहल, बेंत और कनेर आदिके फूल खिले हुए थे । वहाँ विमानके आकाशमें पर्यंतोके समान अंबुज और भी अनेकों महल दिखायी दिये, जो बड़े ही रमणीय और पथ एवं उत्पल जातिके कमलसि सुशोभित थे । यहाँ समस्त श्रुतार्थोंमें खिलनेवाले फूल शोभा दे रहे थे ।

यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा मन-ही-मन सोचने लगे, ‘क्या यह स्वर्ग है या मेरे चित्तमें छम हो गया है अथवा यह सब कुछ सत्य ही है । अहो ! इसी शरीरसे मुझे परम-गतिकी प्राप्ति हो गयी या मैं उत्तरकुष अथवा अमरावतीमें जा पहुँचा । यह महान् आश्चर्यकी बात जो मुझे दिखायी दे रही है, क्या है ?’ राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी वृष्टि भृगुनन्दन ध्ययन मुनिपर पड़ी, जो मणिमय तपमोसे युक्त एक सुवर्णमय विमानके भीतर बहुतमूल्य एवं विषय परांगपर सो रहे थे । उन्हें देखकर राजा कुशिककी बड़ी प्रस-

न्नता हुई और वे अपनी रानीके साथ उनके निकट गये । इतनेहीमें ध्ययन श्रुति उस परांगसहित अन्तर्धान हो गये । फिर एक ही क्षणमें वह सुन्दर बन और बहोकी सारी सजावट विलीन हो गयी । तब राजा उन्हें दूँड़ते-दूँड़ते दूसरे वनमें गये, वहाँ जाकर उन्होंने महाव्रतधारी ध्ययनमुनिकी कुशिको चटाईपर बैठकर शप करते देखा । इस प्रकार अपने योग-बलसे उन्होंने राजाको मोहमें डाल दिया, तब राजा कुशिक यह अल्पन अद्भुत घटना देखकर पत्नीसहित बड़े आश्चर्यमें पड़े और हृदयमें भरकर अपनी स्त्रीसे कहने लगे—‘कल्याणी ! हमने भृगुकुलसितक ध्ययनमुनिकी कृपासे कैसे विचित्र और परम सुखम पदार्थ देले हैं । भला, तपोवससे बढ़कर और कौन-सा बल है ? जिस बातकी मन्त्रके द्वारा कल्पनामात्र की जाती है, वह तपस्यासे साक्षात् सुलभ हो जाती है । त्रिलोकीके राज्यकी अपेक्षा भी तप ही श्रेष्ठ है । अच्छी तरह तपस्या करनेपर उसकी शक्तिसे मोक्षतक मिल सकता है । इन ब्रह्मर्षि महात्मा ध्ययनका प्रभाव अद्भुत है । ये इच्छा करते ही दूसरे लोककी सृष्टि कर सकते हैं । इस पुण्यीपर ब्राह्मण ही पवित्र वाक्, पवित्र बुद्धि और पवित्र कर्मवाले होते हैं । महर्षि ध्ययनके सिवा दूसरा कौन है जो इतना महान् कार्य कर सके ।’

राजा इस प्रकार पड़े-पड़े विचार कर रहे थे, इतनेमें उनका आना महर्षि ध्ययनको मानसु हो गया । उन्होंने राजाको देखकर कहा—‘राजन् ! शीघ्र यहाँ माओ ।’ आज्ञा पाकर महाराज कुशिक स्त्रीसहित मुनिके पास गये और उन कवनीय महात्माको उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । मुनिने आशीर्वाद और सान्त्वना देते हुए उन्हें

बैठनेकी आज्ञा दी। अब मुनि शान्त-अवस्थामें आ गये थे, उन्होंने राजाको मधुर वाणीसे तृप्त करते हुए कहा— 'राजन् ! तुमने पांच ऋत्विजियों, पांच कर्मिन्द्रियों और मनको अच्छी तरह जीत लिया है; इसीलिये तुम महान् संकटसे मुक्त हुए हो। तुमने भलीभाँति मेरी आराधना की है, तुम्हारे द्वारा कोई छोटे-से-छोटा अपराध भी नहीं हुआ है। अच्छा,



अब मुझे जानेकी आज्ञा दो, मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊँगा। तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मुझसे कोई उत्तम वर माँगो।'

कुशिकने कहा—ब्रह्मन् ! आप मुझपर प्रसन्न हैं, यही मेरे लिये सबसे बड़ा वर है तथा यही मेरे जीवन और राज्यका फल है। भृगुनन्दन ! यदि आपका मुझपर प्रेम हो तो मेरे मनमें एक संदेह है, उसे दूर करनेकी कृपा कीजिये।

ज्यवनने कहा—नरथेष्ठ ! तुम मुझसे वर भी माँग लो और तुम्हारे मनमें जो संदेह हो उसे भी कहो; मैं तुम्हारा सब कार्य पूर्ण करूँगा।

कुशिकने कहा—माँव ! यदि आप प्रसन्न हों तो मुझे यह बताइये कि आपने मेरे घरपर इतने दिनोंतक क्यों निवास किया था ? मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ। इक्कीस-दिनोंतक एक करवटसे शयन करना, फिर उठनेपर बिना कुछ बोलते बाहर चल देना, सहसा अन्तर्धान हो जाना, फिर दर्शन

देकर इक्कीस दिनोंतक दूसरी करवटसे सोते रहना, उठनेपर तेलकी मालिश कराना, फिर अन्तर्धान होकर चल देना, पुनः महलमें आकर भौंति-भौंतिके भोजनको एकत्रित करना और उसमें आग लगाकर जला देना, फिर सहसा रथपर सवार हो बाहर नगरकी यात्रा करना, धन लुटाना एवं वनमें अनेकों सुवर्णमय महलों तथा मणि और मूंगोंके पायेवाले पलंगोंका दिखलाना और अन्तमें सबको अदृश्य कर देना—आपके इन कार्योंका मैं यथार्थ कारण सुनना चाहता हूँ।

ज्यवनने कहा—राजन् ! जिस कारणसे मैंने ये सब काम किये थे, उसे आद्योपान्त सुनो—पूर्वकालकी बात है, एक दिन देवताओंकी सभामें ब्रह्माजी कह रहे थे कि 'ब्राह्मण और क्षत्रियोंमें विरोध होनेके कारण दोनों कुलोंमें संकरता आ जायगी।' उनके मुँहसे मैंने यह भी सुना था कि (तुम्हारे वंशकी कन्यासे मेरे वंशमें क्षत्रिय-तेजका संचार होगा और) तुम्हारा एक पौत्र ब्राह्मण-तेजसे सम्पन्न तथा पराक्रमी होगा।' यह सुनकर मैं तुम्हारे वंशका उच्छेद कर डालनेकी इच्छासे यहाँ आया। उस समय मैंने तुमसे यही कहा था कि 'मैं एक व्रतका आरम्भ करूँगा, तुम मेरी सेवा करो।' (इसी व्याजसे मैं तुम्हारा दोष ढूँढ रहा था;) किंतु तुम्हारे घरमें रहकर भी मैंने आजतक तुममें कोई दोष नहीं पाया। इक्कीस दिन तक सोता रहा, पर तुमने या तुम्हारी स्त्रीने मुझे जगानेका साहस नहीं किया। फिर मैं अन्तर्धान हुआ और पुनः तुम्हारे घरमें आकर योगका आश्रय ले इक्कीस दिनोंतक सोया। मैंने सोचा था 'तुमलोग भूल और थकावटसे घबराकर मेरी निन्दा करोगे', इसी उद्देश्यसे मैंने तुमलोगोंको भूले रखकर क्लेश पहुँचाया। इतनेपर भी तुम्हारे और तुम्हारी स्त्रीके मनमें तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। इससे मैं तुमलोगोंके ऊपर बहुत संतुष्ट हुआ। इसके बाद जो मैंने भोजन मँगाकर जलाया, उसके भीतर भी यही उद्देश्य छिपा था कि तुम डाहके कारण मुझपर क्रोध करोगे; किंतु मेरे उस वर्तावको भी तुमने सह लिया। तदनन्तर, मैंने रथपर बैठकर कहा 'तुम स्त्रीसहित आकर मेरा रथ खींचो', इस कार्यको भी तुमने निर्भय होकर पूर्ण किया; फिर जब मैं तुम्हारा धन लुटाने लगा तो भी तुम शोधके वशीभूत नहीं हुए। इन सब बातोंसे मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः मैंने तुम्हें संतुष्ट करनेके लिये ही इस वनमें स्वर्गका दर्शन कराया है। राजन् ! इस वनमें तुमने जो दिव्य दृश्य देखा है, वह स्वर्गकी एक झाँकी थी। तुमने अपनी रानीके साथ इसी शरीरसे कुछ देरतक स्वर्गीय सुखका अनुभव किया है। यह सब मैंने तुम्हें तप और धर्मका प्रभाव दिखलानेके लिये ही किया है। ये बातें देखनेपर तुम्हारे मनमें जो संदेह था, वह दूर हो चुका है।

मातृम हो गयो। तुम सम्राट् और इन्द्रके पदकी भी तुणवत् मानकर ब्राह्मणत्व पाना चाहते हो और तपकी अभिलाषा करते हो। तप और ब्राह्मणत्वके सम्बन्धमें अभी तुम जो विचार प्रकट कर रहे थे, वह बिल्कुल ठीक है। वास्तवमें ब्राह्मण होना दुर्लभ है, ब्राह्मण होनेपर भी ऋषि होना और ऋषि होनेपर भी तपस्वी होना तो और भी दुर्लभ है। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। भृगुवंशियोंके तेजसे तुम्हारा यथा ब्राह्मणत्वको प्राप्त होगा, तुम्हारा पीत अग्निके समान तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण होगा, वह तीनों लोकोंको अपने प्रभावसे आतङ्कित करेगा। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। राजपुत्र! अब तुम धूम्रते अपना मनोपाश्रित घर माँग लो। मैं तीर्थयात्राको जाऊँगा, देर हो रही है।

कुशिकने कहा—महामुने! आप धूम्रपर प्रसन्न हैं, यही मेरे लिये बहुत पड़ा घर है। आप जंता कह रहे हैं, वह सत्य ही—मेरा पीत ब्राह्मण ही जाय। अब मैं विस्तारके साथ यह बात सुनना चाहता हूँ कि मेरा यश किस प्रकार ब्राह्मण होगा? मेरा वह पीत कौन होगा? (जो सर्वप्रथम ब्राह्मण होनेवाला है।)

ध्ववनने कहा—नरस्येष्ठ! यह बात तुम्हें अवश्य बतानेके योग्य है, मुने—क्षत्रियलोग सदासे ही भृगुवंशी ब्राह्मणोंके यजमान हैं; किन्तु प्रारब्धवश आगे चलकर उनमें फूट ही जायगी, इसलिये ये देवकी प्रेरणासे समस्त भृगुवंशियोंका संहार कर डालेंगे, गर्भके बन्धेतरुको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तदनन्तर, मेरे धर्ममें उत्पन्न महर्षि ऊर्वके एक ऋचीक नामक पुत्र होगा, उसके पास प्रारब्धवश समस्त क्षत्रियोंका अन्त

करनेके लिये सम्पूर्ण धनुर्वेद मूर्तिमान् होकर उपस्थित होगा। उस धनुर्वेदको ग्रहण करके ऋचीकमुनि अपने पुत्र जमदग्निको उसकी शिक्षा देंगे। जमदग्नि अपनी तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाले होंगे और उस धनुर्वेदको धारण करेंगे। वे तुम्हारे कुलका कल्याण करनेके लिये तुम्हारे वंशकी कल्याणार्थी-ग्रहण करेंगे, वह कन्या राजा गाथिकी पुत्री और तुम्हारी पौत्री होगी। उसके गर्भसे महर्षि जमदग्नि क्षत्रिय-धर्मका आचरण करनेवाला पुत्र उत्पन्न करेंगे और वे ही महाराज गाथिकी विरवाभिष नामक एक परम धार्मिक पुत्र प्रदान करेंगे, जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण-धर्मका पालन करनेवाला, वृहस्पतिके समान तेजस्वी और महान् तपस्वी होगा। इस प्रकार ब्राह्मणके कुलमें क्षत्रिय और क्षत्रियके कुलमें ब्राह्मणके उत्पन्न होनेमें दो त्रिविधा कारण बनेंगी। यह सब कुछ ब्रह्माज्ञीकी प्रेरणासे होगा। तुम्हारी तीसरी पौत्री ब्राह्मण ही जायगी और तुम पवित्रात्मा भृगुवंशियोंके सम्बन्धी बनीगे।

भीष्मजी कहते हैं—महात्मा ध्यवन मुनिका वचन सुनकर राजा कुशिक बहुत प्रसन्न हुए। तदनन्तर, महादेवकी ध्यवनने उन्हें घर माँगनेके लिये पुनः प्रेरित किया। तब राजाने कहा—‘महामुने! मेरा कुल ब्राह्मण ही जाय और उसका मन धर्ममें लगा रहे।’ उनके इस प्रकार बहनेपर ध्यवन मुनिने कहा—‘अच्छा, ऐसा ही होगा।’ फिर वे राजाकी अनुमति से तीर्थयात्राको चले गये। राजा युधिष्ठिर। इस प्रकार मेने भृगुवंशी और कुशिकवंशियोंके परस्पर सम्बन्धका कारण बतसाया है। ध्यवन ऋषिने जंता कहा था, उसी प्रकार पर्यटाराम और विरवाभिषजकी जन्म हुआ।

नाना प्रकारके शुभ कर्मोंका और जलाशय बनाने तथा वगीचे लगानेका फल

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! इस पृथ्वीको जब मैं सर्पात्तशाली राजाओंसे हीन देखता हूँ तो मुझे बड़ी चिन्ता और घबराहट होती है। यद्यपि मैंने संकड़ों देशोंके राज्योंपर अधिकार पाया है और समूची पृथ्वीपर विजय प्राप्त की है, तथापि इसके लिये जो करोड़ों मनुष्योंकी मेरेद्वारा हत्या हुई है, उसके कारण मेरे मनमें बड़ा संताप हो रहा है। हाय! उन बेचारी स्त्रियोंकी क्या दशा होगी, जो आज अपने पति और बन्धुओंसे हीन हो चुकी हैं। यह सब सोचकर मेरी तो ऐसी इच्छा होती है कि भयंकर तपस्या करके अपने शरीरको मुखा डालूँ; किन्तु इस विषयमें आपका क्या विचार है? यह यथायथं रूपसे सुनना चाहता हूँ।

भीष्मजीने कहा—राजन्! मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य

बतलाता हूँ। मनुष्यको मरनेपर किंचित् कर्मसे कौन-सी पाति मिलती है, इस विषयकी मुने। तपस्यासे स्वर्ग मिलता है, तपस्यासे मुयगीकी प्राप्ति होती है तथा तपस्यासे ही बीर्ष्या, ऊँचा पर और सरह-सरहके भोग प्राप्त होते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सम्पत्ति और सीमायु भी तपस्याके ही फल हैं। तप करनेसे मनुष्य धन पाता है, मोन धनके आचरणसे सबपर हुषम चलाता है, जानसे उपभोग और ब्रह्मचर्यके पालनसे बीर्ष्यायु प्राप्त करता है। व्रतकी बीर्या सेनेसे उत्तम कुलमें जन्म होता है, कल-मूल भोजन करने-वालोंको राज्य और पता धराकर रहनेवालोंको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। रूप पीकर रहनेवाला मनुष्य स्वर्गकी जाता है और शान देनेसे अधिक धन मिलता है। मुदकी है

विद्या और नित्य श्राद्ध करनेसे संतानकी वृद्धि होती है। जो केवल शाकाहार करके रहता है, उसे गोघनकी प्राप्ति होती है। तिनके खानेवाले स्वर्गमें जाते हैं और हवा पीकर रहनेवाले यज्ञका फल पाते हैं। जो द्विज नित्य स्नान करके दोनों समय संध्योपासन करते हैं, वे दक्ष प्रजापतिके समान होते हैं। अन्न और जलका त्याग करनेवाले स्वर्गमें जाते हैं तथा खुले मैदान वेदीपर शयन करनेवालोंको गृह और शय्याकी प्राप्ति होती है। चीपड़े और बल्कल पहननेवालोंको उत्तम-उत्तम वस्त्र और आमूषण मिलते हैं, जलमें बैठकर जप करनेवाला राजा होता है तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्गमें देवताओंके साथ आनन्द भोगता है। दानसे यश, अहिंसासे आरोग्य तथा ब्राह्मणोंकी सेवासे राज्य और ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है। लोगोंको पानी पिलानेसे सदा रहनेवाली कीर्ति मिलती है तथा अन्नदानसे समस्त कामनाओं और उपभोगोंकी प्राप्ति होती है। जो समस्त प्राणियोंको सान्त्वना देता है, वह सब प्रकारके शोकोसे छूट जाता है। देवताओंकी सेवासे राज्य और दिव्य रूप मिलते हैं। मन्दिरमें दीपदान करनेसे मनुष्यका नेत्र नीरोग रहता है। दर्शनीय (सुन्दर) पस्तुओंके दानसे बुद्धि और स्मरणशक्ति प्राप्त होती है। बारह वर्षोंतक उपवास, दीक्षा और त्रिकाल स्नानका नियम पालन करनेसे वीरोसे भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यज्ञ और उपवासेसे स्वर्ग मिलता है। फल और फूल दान करनेवाला मनुष्य मोक्षदायक ज्ञान प्राप्त करता है।

जो सोनेसे मढ़ी हुई सींगोंवाली कपिला गायका काँसके बने हुए दुग्ध-पात्र और बछड़ेसमेत दान करता है, उस पुरुषके पास वह गौ उन्हीं गुणोंसे युक्त कामधेनु होकर आती है। उस गौके शरीरमें जितने रोंए होते हैं, उतने वर्ष-तक मनुष्य स्वर्गमें सुख भोगता है। इतना ही नहीं, वह गौ उसके पुत्र-पौत्र आदि सात पीढ़ियोंतकका उद्धार कर देती है। जैसे महासागरके बीचमें पड़ी हुई नाव वायुका सहारा पाकर पार पहुँचा देती है, उसी प्रकार अपने कर्माँसे बँधकर घोर बन्धकारमय नरकमें पड़ते हुए मनुष्यको गोदान ही पार करता है। जो मनुष्य अपनी कन्याका ब्राह्मविधिसे विवाह करता, ब्राह्मणको भूमिदान देता और विधिवत् अन्न दान करता है, उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। जो स्वाध्यायशील और सवाचारी ब्राह्मणको सर्वगुणसम्पन्न गृह दान करता है, उसका उत्तर कुरुदेशमें जन्म होता है। मार डीनेमें समर्थ बल और गायका दान करनेसे वसुलोककी प्राप्ति होती है। सुवर्णका दान स्वर्ग देनेवाला है तथा पशुके सोनेका दान उससे भी उत्तम फल देता है। छाता देनेसे उत्तम घर, उपानह (जूता) दान करनेसे सयारी, घस्त्र देनेसे सुन्दर रूप और गन्ध दान करने-

से सुगन्धित शरीरकी प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मणको फल और फूलोंसे भरे हुए वृक्षका दान करता है, वह अनायास ही नाना प्रकारके रत्नोंसे पूर्ण समृद्धिशाली घर प्राप्त करता है। अन्न, जल और रस दान करनेवाला पुरुष इच्छानुसार रत्नोंको प्राप्त करता है तथा जो रहनेके लिये घर और ओढ़नेके लिये वस्त्र देता है, वह इन्हीं वस्तुओंको उपलब्ध करता है; इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य ब्राह्मणोंको फूलोंकी माला, धूप, चन्दन, उबटन, नहानेके लिये जल और पुष्प दान करता है, वह नीरोग और सुन्दर रूपवाला होता है। जो पुरुष अन्नसे भरे हुए घरको शय्यासहित दान करता है, उसे अत्यन्त पवित्र, मनोहर और नाना प्रकारके रत्नोंसे भरा हुआ उत्तम स्थान प्राप्त होता है। संप्रामभूमिमें वीरशय्यापर शयन करनेवाला मनुष्य ब्रह्माके समान हो जाता है।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! बगीचे लगाने और जलाशय बनवानेका जो फल होता है, उसको मैं आपके मुँहसे सुनना चाहता हूँ।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! जहाँका वृष्य सुन्दर हो, जहाँ अन्नकी उपज अधिक होती हो, जो नाना प्रकारके धातुओंसे विभूषित एवं विचित्र दिखलायी देती हो तथा जहाँ सब प्रकारके प्राणी निवास करते हों, वही भूमि उत्तम मानी गयी है। उसमें तालाब एवं सब प्रकारके जलाशय (कूप आदि) बनवाना उत्तम क्षेत्र (तीर्थ) के समान है। अब मैं तालाब या पोखरे खुदवानेके पुष्पका वर्णन करता हूँ। तालाब बनवानेवाला मनुष्य तीनों लोकोंमें सर्वत्र पूज्य माना जाता है। तालाब मित्रके घरकी भाँति उपकारी, सूर्य देवताको प्रसन्न करनेवाला तथा देवताओंकी पुष्टि करनेवाला है। पोखरा खुदवाना अपनी कीर्ति फैलानेका सर्वोत्तम उपाय है; इससे धर्म, अर्थ और कामरूप फलकी प्राप्ति होती है। देशमें तालाब बनवानेका पुष्प एक महान् क्षेत्रके समान है, वह चारों प्रकारके प्राणियोंके लिये बहुत बड़ा आधार हो जाता है। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा समस्त स्थावर प्राणी जलाशयका आश्रय लेते हैं; अतः ऋषियोंने तालाब बनवानेसे जिस फलकी प्राप्ति बतलायी है, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो—जिसके खुदवाये हुए पोखरेमें बरसातभर पानी रहता है, उसको अग्निहोत्रका फल प्राप्त होता है। जिसके तालाबमें शरत्कालतक पानी ठहरता है, वह मरनेके पश्चात् एक हजार गोदानका फल प्राप्त करता है। जिसके जलाशयमें हेमन्त (अगहन-पौष) तक पानी रुकता है, वह ऐसे यज्ञका फल प्राप्त करता है, जिसमें सुवर्णकी बहुत-सी बक्षिणा बी जाती है। जिसके पोखरेमें माघ-फाल्गुनतक

जल रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है। जिसके बनवाये हुए तालाबका पानी धँव-धँसालतक समाप्त नहीं होता, वह अतिराव यज्ञका फल प्राप्त करता है तथा जिसके तालाबका जल जेठ-आषाढ़में भी मौजूब रहता है, उसे अश्व-मेध-यज्ञका फल मिलता है। जिसके खूबवाये हुए जलसारायमें गीएँ तथा साधु पुरुष पानी पीते हैं, वह अपने समस्त कुलको तार देता है। जिसके पोखरेमें प्यासी हुई गीएँ तथा मृग, पक्षी और मनुष्य जल पीते हैं, वह अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है। यदि किलीके पोखरेमें होंग स्नान करते, पानी पीते और विभाम करते हैं तो इन सबका पुण्य उस पुरुषको मरनेके बाद अक्षय सुख प्रदान करता है। पानी दुर्लभ पदार्थ है, परलोकमें तो उसका मिलना और भी कठिन है; जो जलका दान करते हैं, वे ही वहाँ सदा तुष्ट रहते हैं। पानीका दान सब वानोंसे भारी और सब वानोंसे ध्येष्ठ है; अतः उसका दान अवश्य करना चाहिये।

इस प्रकार यह मैंने तालाब बनवानेके उत्तम फलका वर्णन किया, अब वृक्ष लगानेके सम्बन्धमें कुछ बातें बताता हूँ। स्यावर भूतोंकी छः जातियाँ बतायी गयी हैं—वृक्ष (बड़ा-पीपल आदि), गुल्म (कुरा आदि), लता (वृक्षपर फँसनेवाली बेल), बल्ली (जमीनपर फँसनेवाली बेल), त्वक्सार (बाँस आदि) और तुण (पास आदि)। अब इनको लगानेमें जो गुण हैं, उनको सुनो। वृक्ष लगानेवाले मनुष्यको इस लोकमें

शक्ति बनी रहती है और मरनेके बाद उसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। संसारमें उसका नाम होता है, परलोकमें पितर उसका सम्मान करते हैं तथा देवलोकमें धले जानेपर भी यहाँ उसका नाम नष्ट नहीं होता। वृक्ष लगानेवाला पुरुष अपने मरे हुए पितरों और मरिष्यमें होनेवाली संतानोंका भी उद्धार कर देता है, इसलिये वृक्ष अवश्य लगाने चाहिये। जो वृक्ष लगाते हैं, उनके लिये वे वृक्ष पुत्रके समान होते हैं, उन्हींके कारण वह परलोकमें स्वर्ग तथा अशय लोकोंको प्राप्त करता है। वृक्षगण अपने फूलोंसे देवताओंको, फलसे पितरोंकी और छायासे अतिथियोंकी पूजा करते हैं। किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, गन्धर्व, मनुष्य और ऋषि—ये सभी वृक्षोंका आश्रय लेते हैं। फूलके वृक्ष इस जगत्में मनुष्योंको तुष्ट करते हैं। जो वृक्षका दान करता है, उसको वे वृक्ष पुत्रको भाँति परलोकमें तार देते हैं; इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह पोतरा सुदवाकर उसके किनारे अच्छे-अच्छे वृक्ष भी लगावे और उन वृक्षोंको पुत्रके समान रक्षा करे; क्योंकि वे वृक्ष धर्मकी दृष्टिसे पुत्र ही माने जाते हैं। जो तालाब बनवाता, वृक्ष लगाता, यज्ञोंका अनुष्ठान करता तथा सत्य बोलता है, वह स्वर्गमें सम्मानित होता है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह तालाब बनवावे, ऋषिसे लगावे, भाँति-भाँतिके यज्ञोंका अनुष्ठान करे और सदा सत्य बोलें।

भीष्मद्वारा उत्तम दान और उत्तम ब्राह्मणोंकी प्रशंसा करते हुए उनकी आराधनाका उपदेश

युधिष्ठिरने पुद्गा—पितामह! देवीके बाहर जो दान बतलाये जाते हैं, उनमें आप किसको सर्वधेष्ठ मानते हैं? जिस दानका पुण्य दाताका अनुसरण करता हो, वही मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! सम्पूर्ण प्राणियोंको अमय दान दे, संकटके समय उनपर दया करे, उनकी चाली हुई वस्तु उन्हें दे और प्यासेको पानी पिलावे। सुवर्ण, गौ और पृथ्वी—इन तीन वस्तुओंका दान बड़ा पवित्र माना गया है, इससे पापीका भी उद्धार हो जाता है। राजन्! तुम साधु पुरुषोंको हेमेशा ही इन वस्तुओंका दान किया करो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये दान मनुष्यको पापसे मुक्त कर देते हैं। संसारमें जो-जो पदार्थ अत्यन्त प्रिय माना जाता है तथा अपने धरमें जो भी प्रिय वस्तु मौजूब हो, वह सब गुणवान् पुरुषको दान देना चाहिये, इससे वह दान अक्षय होता है। जो सदा द्रव्योंका प्रिय कार्य करता और उन्हें प्रिय वस्तु दान

देता है, वह इहलोक और परलोकमें समस्त प्राणियोंका प्रिय होता है तथा उसे सदा प्रिय वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। जो आसक्तिरहित और अकिंचन पुरुषके भी याचना करनेपर अहंकारवश अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम सत्कार नहीं करता, वह क्रूर है। शत्रु भी यदि डीन होकर गरण पानेकी इच्छासे धरपर आ जाय तो संकटके समय जो उसपर दया करता है, वही मनुष्यमें धेष्ठ है। विद्वान् होनेपर भी जिसकी आज्ञाधिकार क्षीण हो गयी है, जो बीन-नुबल और दुस्रो है, ऐसे मनुष्यकी भ्रूष मिटानेवाले पुरुषके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है। जो स्त्री-पुत्रोंके पालनमें असमर्थ होनेके कारण विशेष कष्ट उठानेपर भी किसीसे याचना नहीं करते और हठ-सात्कारमें ही लगे रहते हैं, उनको हर एक उपायसे अपने हठ-सात्कार सहायता देनी चाहिये। युधिष्ठिर! जो देवता और मनुष्योंसे किसी वस्तुकी कामना नहीं करते रहते और जो कुछ मित जाय उत्तीर

पूज्य पुरुषोंका पता लगाकर उन्हें निमन्त्रित करो और आवश्यक सामग्रीसे युक्त तथा सब प्रकारसे सुखद गृह निवेदन करके उनका पूर्ण सत्कार करो। यदि तुम्हारा दान श्रद्धासे पवित्र और कर्तव्यकी दृष्टिसे ही किया हुआ होगा तो पुण्य-कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाले वे धार्मिक पुरुष उसे उत्तम मानकर स्वीकार कर लेंगे। जो विद्वान्, व्रतका पालन करनेवाले, किसीका आश्रय लिये बिना ही जीवन-निर्वाह करनेवाले, अपने स्वाध्याय और तपको गुप्त रखनेवाले, फठोर नियमोंमें झंलग्न, शुद्ध, जितेन्द्रिय और अपनी ही स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, उन उत्तम ब्राह्मणोंके लिये तुम जो कुछ दान करोगे उससे तुम्हारा कल्याण होगा। द्विजके द्वारा सायं और प्रातःकाल विधिपूर्वक किया हुआ अग्निहोत्र जो फल प्रदान करता है, वही फल संयमी ब्राह्मणोंको दान देनेसे मिलता है। तुम्हारे द्वारा किया जानेवाला विशाल दान-यज्ञ श्रद्धासे पवित्र एवं दक्षिणासे युक्त है; यह सब यज्ञोंसे बढ़कर है, इसको सदा चालू रखो।

जो ब्राह्मण कभी श्रोध नहीं करते, जिनके मनमें तिनकेका भी लोभ नहीं होता और जो सदा मोठे वचन बोलते हैं, वे ही मेरे परमपूज्य हैं। उपर्युक्त ब्राह्मण निःस्पृह होनेके कारण धनके लिये कोई कार्य नहीं करते, उनकी पुत्रके समान रक्षा करनी चाहिये। उन्हें वारंवार नमस्कार है; उनकी ओरसे हमलोगोंको कोई भय न हो। ऋत्विक्, पुरोहित और आचार्य—ये प्रायः कोमल स्वभाववाले और वेदोंको धारण करनेवाले होते हैं। क्षत्रियका तेज ब्राह्मणके पास जाते ही शान्त हो जाता है, इसलिये तुम अपनेको धनी, बलवान् और राजा समझकर ब्राह्मणोंकी अवहेलना करके स्वयं ही अन्न-यस्त्रका उपभोग न करना। तुम्हारे पास जो धन है उसके द्वारा अपने धर्मका अनुष्ठान करते हुए तुम्हें ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये। यथेच्छ वृत्तिसे रहनेवाले ब्राह्मणोंको तुम सदा प्रणाम किया करो और वे भी तुम्हारे आश्रयमें उस्ताह और आनन्दके साथ रहें। क्रुश्रेष्ठ! जिनकी कृपा अक्षय है, जो सबका हित करनेवाले और थोड़ेमें ही संतुष्ट रहनेवाले हैं, उन ब्राह्मणोंको तुम्हारे सिवा दूसरा कौन जीविका दे सकता है? जिस प्रकार इस संसारमें स्त्रियोंका सनातन-धर्म पतिकी सेवापर ही अवलम्बित है, उसी प्रकार हमारी गति ब्राह्मणोंके अधीन है। तात! यदि हम ब्राह्मणोंकी पूजा न करें और क्षत्रियमें सदा रहनेवाले निष्ठुर कर्मको देखकर ब्राह्मण भी हमारा परित्याग कर दें तो हम वेद, यज्ञ, उत्तम लोक और आजीविकासे भी भ्रष्ट हो जायें; उस दशामें हमारे जीवित रहनेका क्या प्रयोजन होगा?

राजन्! अब मैं तुम्हें सनातन कालका धार्मिक व्यवहार

बता रहा हूँ, सुनो—पूर्वकालमें क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी, वैश्य क्षत्रियोंकी और शूद्र वंश्योंकी सेवा करते थे। ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी हैं, अतः शूद्रको दूरसे ही उनकी सेवा करनी चाहिये; किंतु क्षत्रिय और वैश्यको शरीर-स्पर्शपूर्वक ब्राह्मणकी सेवा करनी उचित है। ब्राह्मण स्वभावतः कोमल, सत्यवादी और सत्यधर्मका पालन करनेवाले होते हैं, किंतु जब वे क्रोधमें भरते हैं तो विघ्नले सांपोंके समान भयंकर हो जाते हैं, अतः तुम सदा ब्राह्मणोंकी सेवा करते रहो। तेज और बलसे तपनेवाले क्षत्रियोंके तप और तेज ब्राह्मणोंमें ही शान्त होते हैं। तात! मुझे ब्राह्मण जितने प्रिय हैं उतने मेरे पिता, पितामह, यह शरीर और जीवन भी प्रिय नहीं हैं। इस पृथ्वीपर तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है; किंतु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं। पाण्डुनन्दन! यह मैं सच्ची बात बता रहा हूँ और इसी सत्यके कारण जहाँ मेरे पिता महाराज शान्तनु विराजमान हैं, उस लोकमें मैं जाऊंगा और सत्पुरुषोंको मिलनेवाले ब्रह्मलोक आदि उत्तम लोकोंका दर्शन करूंगा। अब मुझे बहुत शीघ्र और-चिरकाल-तकके लिये उन लोकोंमें जाना है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! उत्तम आचरण, विद्या और कुलमें एक समान प्रतीत होनेवाले दो ब्राह्मणोंमेंसे यदि एक याचक हो और दूसरा अयाचक तो किसको दान देनेसे उत्तम फल मिलता है?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! याचना करनेवालेकी अपेक्षा याचना न करनेवालेको दिया हुआ दान विशेष कल्याण करनेवाला होता है तथा अधीर हृदयवाले कृपण मनुष्यकी अपेक्षा धैर्य धारण करनेवाला ही विशेष सम्मानका पात्र है। रक्षाके कार्यमें धैर्य धारण करनेवाला क्षत्रिय और याचना न करनेमें दृढ़ता रखनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण धीर, संतोषी और विद्वान् होते हैं, वे वेदताओंको प्रसन्न करते हैं। वरिष्ठकी याचना उसके लिये तिरस्कारका कारण मानी गयी है; क्योंकि याचक लुटेरोंकी भाँति सदा प्राणियोंको उद्विग्न करते रहते हैं। याचक मर जाता है किंतु दाता कभी नहीं मरता। याचकको जो दान दिया जाता है यह दयारूप परम धर्म है; किंतु जो लोग क्लेश उठाकर भी याचना नहीं करते, उन ब्राह्मणोंको प्रत्येक उपायसे अपने पास बुलाकर दान देना चाहिये। यदि तुम्हारे राज्यके भीतर राखमें छिपी हुई आगकी तरह वैसे उत्तम ब्राह्मण रहते हों तो तुम्हें यत्नपूर्वक उनकी खोज करनी चाहिये; क्योंकि तपस्यासे वेदीप्यमान रहनेवाले वे ब्राह्मण पूजित न होनेपर यदि चाहें तो सारी पृथ्वीको भस्म कर सकते हैं, अतः उनकी सदा पूजा करनी चाहिये। जो ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान और तपस्यासे युक्त

एवं पूजनीय हैं, उनकी तुम्हें सदा ही पूजा करनी चाहिये । जो याचना नहीं करते, उनके पास तुम्हें स्वयं जाकर नाना प्रकारके पदार्थ दान करने चाहिये । सायं और प्रातःकाल विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेसे जो फल मिलता है, वही वेदके विद्वान् और ऋतधारी ब्राह्मणको दान देनेसे भी मिलता है । जो विद्या और वेदव्रतमें निष्णात हैं, जो किसीके आश्रित होकर जीविका नहीं चलाते, जिनका स्वाध्याय और तपस्या गुप्त है तथा जो उत्तम व्रतका पालन करनेवाले हैं, ऐसे उत्तम ब्राह्मणोंको तुम अपने यहाँ निमन्त्रित करो और उन्हें सेवक तथा आवरयक सामग्रीके साथ रहनेके लिये उत्तम घर दो । वे धर्मत तथा सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मण तुम्हारे धर्मायुक्त दानको कर्तव्यबुद्धिसे किया हुआ मानकर अवश्य स्वीकार करेंगे । जैसे किसान वर्षाको बाट ओहता रहता है, उसी प्रकार जिनके घरकी

स्त्रियाँ अन्नकी प्रतीक्षामें बँधी हों, ऐसे ब्राह्मणोंको दान देनेसे महान् पुण्य होता है । नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण यदि प्रातःकाल घरमें भोजन करते हैं तो तीनों अग्निर्षोको तुप्त कर देते हैं, दोपहरके समय उन्हें घी, सुबर्ण और वस्त्र देनेसे इन्द्र देवता प्रसन्न होते हैं तथा तीसरे पहरमें जो तुम देवताओं, पितरों और ब्राह्मणोंके उदरर्यसे दान करते हो, यह विरवेदेवोंको संतुष्ट करनेवाला होता है । सब प्राणियोंके प्रति अहिंसाका भाव रखना, सबको यथायोग्य भाग अपंग करना, इन्द्रियसंयम, त्याग, धैर्य और सत्य—ये सब गुण तुम्हें यज्ञानामें अवमुख-स्नानका फल दोगे और इस प्रकार जो तुम्हारे धर्मायुक्त एवं दक्षिणायुक्त यज्ञका विस्तार हो रहा है, यह सभी यज्ञोंसे बढ़कर है । तात युधिष्ठिर ! तुम इस यज्ञको सदा जारी रखना ।

राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राह्मण आदि प्रजाकी रक्षाका उपदेश

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! दान और यज्ञ—ये दोनों क्रियाएँ इस लोकमें फल देती हैं या परलोकमें इनका महान् फल प्राप्त होता है ? इन दोनोंमेंसे किसका फल श्रेष्ठ है ? कंसे लोगोंको दान देना चाहिये ? तथा किस प्रकार और कब यज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये ? इस बातको मैं यथार्हपणे जानना चाहता हूँ, अतः आप मुझसे दान-धर्मका वर्णन कीजिये ।

भौष्मजीने कहा—बेटा ! क्षत्रियोंको सदा कठोर कर्म करने पड़ते हैं, अतः यज्ञ और दान ही उसे पवित्र करनेवाले कर्म हैं । साधु पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं लेते, इसलिये राजाओंको पर्याप्त दक्षिणा देकर यज्ञोंका अनुष्ठान करना चाहिये । साधु पुरुष यदि दान स्वीकार करें तो राजाको बड़ी धन्दाके साथ उन्हें प्रतिदिन दान देना चाहिये; क्योंकि धन्दापूर्वक किया हुआ दान आत्ममुद्धिका सर्वोत्तम साधन है । तुम नियमपूर्वक यज्ञकी दीक्षा लेकर सुशील, सदाचारी, तपस्वी, वेदवेत्ता, सबसे मंत्री रखनेवाले तथा साधु-स्वभावावाले ब्राह्मणोंको घन देकर संतुष्ट करो । यदि वे तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हें पुण्य नहीं होगा, इसलिये दक्षिणायुक्त यज्ञोंका अनुष्ठान करो और साधु-ब्राह्मणोंको स्वादिष्ट अन्न भोजन कराओ । याज्ञिक पुरुषोंको दान करके ही तुम अपनेको यज्ञ और दानके पुण्यका भागी समझ लो । यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंका सदा सम्मान करो, इससे तुम्हें भी यज्ञका आँसिक फल प्राप्त हो जायगा । जो बहूतीका उपकार करनेवाले, धान-अन्नेवाले ब्राह्मणोंका

पालन-भोग्य करता है, वह उस शुभकर्मके प्रमाप्ते प्रजापतिके समान संतानवान् होता है । परोपकारी संत पुरुष सदा उत्तम धर्मोंका प्रसार और प्रचार करते रहते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण करके भी ऐसे लोगोंका पालन-भोग्य करना चाहिये ।

युधिष्ठिर ! तुम समृद्ध हो, इसलिये ब्राह्मणोंको गाय, बैल, अन्न, छाता, शूता और वस्त्रदान करते रहो । जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, उन्हें घी, अन्न, धोखे जूते हुए रुप आदिकी सवारियाँ, उत्तम घर और शाय्या आदि दान करो । ये दान सरसतासे होनेवाले और समृद्धिको बढ़ानेवाले हैं । जिन ब्राह्मणोंका आचरण निन्दित न हो, ये यदि जीविकाके जिना कष्ट पा रहे हों तो उनका पता लगाकर गुप्त या प्रकटरूपमें जीविकाका प्रबन्ध करके सदा उनका पालन करते रहना चाहिये । क्षत्रियोंके लिये यह कार्य राजभूय और अरवमेघ यज्ञसे भी अधिक कल्याणकारी है । ऐसा करनेसे तुम सब पापोंसे मुक्त और पवित्र होकर स्वर्गमें जाओगे । तुम्हें अपने सेवकों और प्रजाका भी पुत्रकी भाँति पालन करना चाहिये । ब्राह्मणोंके पास जो वस्तु न हो उसे देना और जो हो उसकी तुम्हें ब्राह्मणोंकी सेवामें लगाया चाहिये, उनकी रक्षासे कभी मूँह नहीं मोड़ना चाहिये । ब्राह्मणोंके पास यदि बहुत धन इकट्ठा हो जाय तो यह उनके लिये अनर्पका ही कारण होता है; क्योंकि सन्धीका निरन्तर सहायता उन्हें धर्म और मोक्षमें डाल देता है । ब्राह्मण जब मोहग्रस्त होते हैं तो निरक्षय हो धर्मका नाश हो जाता है और धर्मका भाग होनेपर प्राणियोंका

भी नाम हो जाता है—इसमें तनिक भी संवेह की बात नहीं है। जो राजा प्रजासे करके स्वयं प्राप्त हुए धनको खर्चा-चियोंके सुखुर्वं करके खजानेमें रखवा लेता है और अपने कर्मचारियोंको यज्ञके लिये राज्यसे दूसरा धन यत्न करके लिये आना बेकर प्रजाको सूटता है तथा उसकी आज्ञाके अनुसार लोगोंको दण्ड-धमकाकर निष्ठुरतापूर्वक जो धन लाया जाता है उसीसे यज्ञका अनुष्ठान करता है, उस राजाके ऐसे यज्ञको सामु पुरुष प्रशंसा नहीं करते। इसलिये जो लोग बहुत धनी हों और चिन्ता पीड़ा विये ही अनुकूलतापूर्वक धन के साथ उन्हींके लिये हुए धनको उपयोगमें लाना चाहिये। ऐसे ही उपायसे संग्रह किये हुए धनके द्वारा यज्ञ करना उचित है, बलात्कारपूर्वक लाये हुए धनसे नहीं। जब राजाका विधिपूर्वक राज्याभिषेक हो जाय तो राज्यासनपर बैठनेके अनन्तर राजाको महान् यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें बहुत-सी वधिणा देनी चाहिये। राजा बृद्ध, बालक, बीन और अंधे मनुष्यके धनकी रक्षा करे। पानी न बरसनेपर जब प्रजा कुर्बान खोयकर किसी तरह सिंचाई करके कुछ अन्न पैदा करे तो राजाको उससे कर नहीं लेना चाहिये तथा जो स्त्री किसी बलेशमें पड़कर रो रही हो उससे भी धन लेना उचित नहीं है। राजा यदि बरिद्धका धन छीनता है तो यह धन उसके राज्य और लक्ष्मीका नाश कर देता है। जिसके स्वादिष्ट भोजनकी ओर ध्यान करसती आँखोंसे देखते हैं और वह उन्हें खानेको नहीं मिलता, उस पुरुषके द्वारा इससे बढ़कर पाप और बुरा हो सकता है? राजन्! यदि तुम्हारे राज्यमें कोई विद्वान् ब्राह्मण भूषते कष्ट पा रहा हो तो तुम्हें

श्रूणहत्याका पाप लग सकता है। राजा शिबिने कहा है कि 'जिसके राज्यमें ब्राह्मण या और कोई मनुष्य क्षुधासे पीड़ित हो रहा हो, उस राजाके जीवनको घिबकार है।' जिसके राज्यमें स्नातक ब्राह्मण भूलका बलेश उठा रहा हो, उसके राज्यकी उन्नति नहीं होती, साथ ही वह शत्रु राजाओंके हाथमें चला जाता है। जिसके राज्यसे रोती-बिलबली स्त्रियोंका बलपूर्वक अपहरण हो जाता हो और उनके पति-पुत्र रोते-पीटते रह जाते हों, उस राजाको जीवित नहीं समझना चाहिये, यह मुँदके समान है। जो प्रजाकी रक्षा नहीं करता, सिर्फ उसके धनको सूटता-ससोटता रहता है तथा जिसके पास कोई सुयोग्य मन्त्री नहीं है, वह निर्दयी राजा कलिपुत्रके समान है। प्रजाको चाहिये कि ऐसे राजाको बाँधकर मार डाले। जो प्रजासे यह कहकर कि 'मैं तुमलोगोंका रक्षक हूँ' फिर उनकी रक्षा नहीं करता, वह पागल कुत्तेकी तरह मार डालनेके योग्य है। राजासे अरक्षित होकर प्रजा जो कुछ पाप करती है, राजाको उसके चतुर्थांशका भागी होना पड़ता है। इसी प्रकार राजासे मलीमाति सुरक्षित होकर प्रजा जो भी शुभ कर्म करती है, उसके पुण्यका चौथाई भाग राजाको प्राप्त होता है। युधिष्ठिर! जैसे सब प्राणी भेषके सहारे जीवन धारण करते हैं, जैसे पक्षी बहुत बड़े वृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं तथा जिस प्रकार राक्षस कुबेरके और देवता इन्द्रके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे जीते-जी सारी प्रजा तुमसे ही अपनी आजीविका चलाये, तुम्हारे सुहृद् और पार्श्व-बन्धु तुमपर ही अवलम्बित होकर जीवन-निर्याह करे।

भूमिदानका महत्त्व

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! 'यह देना चाहिये, यह देना चाहिये' कहकर भूमि बड़े आवरके साथ दानका विधान करती है तथा शास्त्रोंमें राजाओंके लिये अनेकों प्रकारके दानकी आज्ञा है; किन्तु उन सब दानोंमें कौन-सा दान सबसे उत्तम है?

श्रीकृष्णजीने कहा—बेटा! सब दानोंमें पृथ्वीदान सबसे बढ़कर माना गया है। पृथ्वी अचल और अक्षय है, यह मनुष्योंकी समस्त उत्तम कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है। परम, रत्न, पशु और धान-जो आवि नाना प्रकारके अन्न पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं। अतः पृथ्वीका दान करनेवाला मनुष्य बहुत बराबरक समृद्धिसाली रहकर सुख भोगता है। जयसकः पृथ्वी कायम रहती है तबताक भूमिदान करनेवाला

मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता ही रहता है। इस जगत्में भूमिदानसे बढ़कर और कोई दान नहीं है। हमने सुना है, जिन लोगोंने थोड़ी-सी भी पृथ्वी दान की है, वे भूमिदानका पूर्ण फल पाकर उसका उपयोग करते हैं। जो इस अक्षय पृथ्वीका दान करता है, वह दूसरे जन्ममें मनुष्य होकर पृथ्वीका स्वामी होता है। धर्मशास्त्रोंका सिद्धान्त है कि जैसा दान किया जाता है वैसे भोग मिलता है। संग्राममें शरीरका त्याग करे अथवा इस पृथ्वीको दान दे—ये दोनों ही कार्य क्षत्रियोंको उत्तम लक्ष्मीको प्राप्ति करानेवाले हैं। दानमें दो हुई पृथ्वी दाताको पवित्र कर देती है। कितना ही बड़ा पापी, ब्रह्महत्यारा और अतत्पचावी बयों न हो, दानमें दो हुई पृथ्वी दाताके पापको धो-बहाकर उसे सर्वथा निष्पाप कर देती है।

साधु पुण्य पापी राजाओंसे भी पृथ्वीका दान ले लेते हैं; किंतु और किसी वस्तुका दान नहीं स्वीकार करते। अयोग्य पात्रको भूमिदान लेनेका अधिकार नहीं है। जिस भूमिको दानमें दे दिया जाय, उससे स्वयं काम नहीं लेना चाहिये। जीविका न होनेके कारण मनुष्य क्लेशमें पड़कर जो कुछ पाप कर डालता है, वह सारा पाप गोचर्मके बराबर भी भूमिदान करनेसे धुल जाता है। जो राजा कठोर कर्म करनेवाले और पापपरायण हैं, उन्हें पापमुक्त होनेके लिये इस परम पावन पृथ्वीदानका उपदेश करना चाहिये। प्राचीन कालके लोग ऐसा मानते थे कि जो अरबमेघ-यज्ञ करता है अथवा जो साधु पुण्यको पृथ्वी-दान करता है, इन दोनोंमें बहुत कम अन्तर है। जो पृथ्वीका दान करता है, उसे तप, यज्ञ, विद्या, सुशीलता, सोमका अभाव, सत्यवादिता, गुरु-शुभ्रपा और देवाराधनका भी फल मिल जाता है। जो अपने स्वामीका भला करनेके लिये रणभूमिमें मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं, ये भी भूमिदान करनेवाले पुण्यसे आगे नहीं बढ़ते। जैसे माता अपने बच्चेको सदा दूध पिलाकर पालती है, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकारके रस देकर भूमिदाताके ऊपर अनुग्रह करती है। मृत्यु, काल, वृद्ध, तमोगुण, वारुण अग्नि और भयंकर पाश—ये भूमिदान करनेवालेके पास नहीं फटकने पाते। पृथ्वीका दान करनेवाला शान्तचित्त मनुष्य देवता और पितरोंको भी तृप्त कर देता है। दुर्बल, जीविकाके बिना दुखी और झूखके कष्टसे भरते हुए ब्राह्मणको उपजाऊ भूमिदान करनेवाला मनुष्य यज्ञका फल पाता है। जैसे बछड़ेके प्रति वात्सल्यभावसे भरी हुई गी अपने घनसे दूध बहाती हुई उसे पिलानेके लिये बीड़ती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी भूमिदान करनेवालेको सुल पहुँचाती है। जो मनुष्य जोती, बोयी और उपजी हुई खेतीसे भरी भूमिदान करता है अथवा विशाल भवन घनवाकर देता है, उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं। जो सबाचारी अग्निहोत्री और उत्तम धर्ममें संलग्न ब्राह्मणको भूमिदान करता है, उसे कभी विपत्तिप्रस्त नहीं होना पड़ता। जैसे चन्द्रमाको कला प्रतिबिम्ब बढ़ती है, उसी प्रकार दान की हुई पृथ्वीमें जितनी बार फसल पैदा होती है, उतना ही उसके दानका फल बढ़ता जाता है। इस विषयमें प्राचीन बातोंके जानकार लोग पृथ्वीकी गायी हुई एक गायी कहा करते हैं, जिसे सुनकर परशुरामजीने समूची पृथ्वी कश्यपजीको दान कर दी थी। वह गायी इस प्रकार है—(पृथ्वी कहती है—) 'मुझे दानमें दो और मुझे ही दानके रूपमें ग्रहण करो। मुझे देकर मुझे ही पाओगे; क्योंकि मनुष्य इस लोकमें जो कुछ दान करता है, वही उसे परलोकमें मिलता है।' जो मनुष्य धाड़कालमें

पृथ्वीकी इस वेदवस्तुपुत्र गायीका पाठ करता है, वह ब्रह्मभाबको प्राप्त होता है। अत्यन्त प्रबल कृत्या (मारुण-शक्ति) के प्रयोगसे जो भय प्राप्त होता है, उसको शान्त करनेका सबसे महान् साधन पृथ्वीका दान ही है। भूमि-दान करनेके मनुष्य अपने आगे-पीछेको सब पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो देवके समान माननीय इस भूमिदाताको जानता है, वह भी अपनी सब पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। यह पृथ्वी सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्तिकी स्थान है और अग्नि इसका अधिष्ठाता देवता है। राजाको राजसिंहासनपर अभिषिक्त करनेके बाद उसे पृथ्वीको बतायी हुई गाथा सुना देनी चाहिये, जिससे वह भूमिका दान करे और सत्पुण्यके हाथसे उन्हें बी हुई वृत्ति छीन न ले।

जिनका राजा धर्मको न जाननेवाला और नास्तिक होता है, ये लोग न सुखते सोते हैं और न सुखसे भागते हैं, अपितु उस राजाके बुराचारसे सदा उद्विग्न रहते हैं। ऐसे राजाके राज्यमें योग-शेम नहीं प्राप्त होता। किंतु जिस बेराज राजा बुद्धिमान और धार्मिक होता है वहकें लोग सुखसे सोते और सुखसे जागते हैं। ये अपने राजाके सद्गुण्यहार और सुन्दर राज्य-व्यवस्थासे अत्यन्त संतुष्ट रहते हैं। उस राज्यमें सम्यक् वर्ण होती तथा वहाँकी प्रजा योग-शेमसे सम्पन्न एवं अपने शुभकर्मोंसे समृद्धिशासिनी होती है। जो पृथ्वी दान करता है, वही कुलीन, वही बन्धु, वही पुण्यात्मा, वही धाता और वही पराक्रमी है। जो मनुष्य देवदेवता ब्राह्मणको धन-धान्यसे सम्पन्न भूमिदान करते हैं, ये इस पृथ्वीपर सूर्यके समान देवीप्यमान होते हैं। जैसे जमोनेमें बोये हुए बीज अधिक अन्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमिदान करनेसे सब प्रकारकी कामनाएँ सफल होती हैं। आदित्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अग्नि और भगवान् शंकर—ये सभी भूमिदान करनेवालेका आरव करते हैं। समस्त जीव पृथ्वीसे ही उत्पन्न और पृथ्वीमें ही लीन होते हैं। अण्डज, पिण्डज, स्वैरज और उज्ज्वज—इन चार प्रकारके प्राणियोंका शरीर पृथ्वीका ही कार्य है। पृथ्वी ही इस जगत्की माता और पिता है, इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है।

मुधिष्ठिर ! इस विषयमें जानकार लोग बृहस्पति और इन्द्रके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। प्राचीन कालमें जब इन्द्रने बृहत्-नी बलिगा बेकर बड़े-बड़े सौ घसोंका अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो विद्वानोंमें श्रेष्ठ बृहस्पतिजीसे पूछा—'भगवन् ! किस वस्तुका दान करनेसे स्वर्गका सुल प्राप्त होता है ? जिसका फल अन्न और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हो, वही दान मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।' बृहस्पतिजीने कहा—'इन्द्र ! जो बुद्धिमान् सुषमं, नी

भी नाश हो जाता है—इसमें तनिक भी संवेह की बात नहीं है। जो राजा प्रजासे करके रूपमें प्राप्त हुए धनको खजांचीयोंके सुपुर्द करके खजानेमें रखवा लेता है और अपने कर्मचारियोंको यज्ञके लिये राज्यसे दूसरा धन बसूल करनेके लिये आज्ञा देकर प्रजाको लूटता है तथा उसकी आज्ञाके अनुसार लोगोंको डरा-धमकाकर निष्ठुरतापूर्वक जो धन लाया जाता है उसीसे यज्ञका अनुष्ठान करता है, उस राजाके ऐसे यज्ञकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते। इसलिये जो लोग बहुत धनी हों और बिना पीड़ा दिये ही अनुकूलतापूर्वक धन दे सकें उन्हींके दिये हुए धनकी उपयोगमें लाना चाहिये। ऐसे ही उपायसे संग्रह किये हुए धनके द्वारा यज्ञ करना उचित है, बलात्कारपूर्वक लाये हुए धनसे नहीं। जब राजाका विधिपूर्वक राज्याभिषेक हो जाय तो राज्यासनपर बैठनेके अनन्तर राजाको महान् यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें बहुत-सी दक्षिणा देनी चाहिये। राजा वृद्ध, बालक, दीन और अंधे मनुष्यके धनकी रक्षा करे। पानी न बरसनेपर जब प्रजा कुर्बा खोदकर किसी तरह सिंचाई करके कुछ अन्न पैदा करे तो राजाको उससे कर नहीं लेना चाहिये तथा जो स्त्री किसी क्लेशमें पड़कर रो रही हो उससे भी धन लेना उचित नहीं है। राजा यदि बरिद्रका धन छीनता है तो वह धन उसके राज्य और लक्ष्मीका नाश कर देता है। जिसके स्वाधिष्ठ भोजनकी ओर बालक तरसती आँखोंसे देखते हैं और वह उन्हें खानेको नहीं मिलता, उस पुरुषके द्वारा इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है? राजन्! यदि तुम्हारे राज्यमें कोई विद्वान् ब्राह्मण भूलसे कष्ट पा रहा हो तो तुम्हें

श्रूणहृत्याका पाप लग सकता है। राजा शिबिने कहा है कि 'जिसके राज्यमें ब्राह्मण या और कोई मनुष्य क्षुधासे पीड़ित हो रहा हो, उस राजाके जीवनको धिक्कार है।' जिसके राज्यमें स्नातक ब्राह्मण भूलका क्लेश उठा रहा हो, उसके राज्यकी उन्नति नहीं होती, साथ ही वह शत्रु राजाओंके हाथमें चला जाता है। जिसके राज्यसे रोती-बिलखती स्त्रियोंका बलपूर्वक अपहरण हो जाता हो और उनके पति-पुत्र रोते-पीटते रह जाते हों, उस राजाको जीवित नहीं समझना चाहिये, वह मुँडके समान है। जो प्रजाकी रक्षा नहीं करता, सिर्फ उसके धनको लूटता-खसोटता रहता है तथा जिसके पास कोई सुयोग्य मन्त्री नहीं है, वह निर्दयी राजा कलियुगके समान है। प्रजाको चाहिये कि ऐसे राजाको बाँधकर मार डाले। जो प्रजासे यह कहकर कि 'मैं तुमलोगोंका रक्षक हूँ' फिर उनकी रक्षा नहीं करता, वह पागल कुत्तेकी तरह मार डालनेके योग्य है। राजासे अरक्षित होकर प्रजा जो कुछ पाप करती है, राजाको उसके चतुर्थांशका भागी होना पड़ता है। इसी प्रकार राजासे भलीभाँति सुरक्षित होकर प्रजा जो भी शुभ कर्म करती है, उसके पुण्यका चौथाई भाग राजाको प्राप्त होता है। युधिष्ठिर! जैसे सब प्राणी भेधके सहारे जीवन धारण करते हैं, जैसे पत्नी बहुत बड़े वृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं तथा जिस प्रकार राक्षस कुबेरके और देवता इन्द्रके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे जीते-जी सारी प्रजा तुमसे ही अपनी आजीविका चलावे, तुम्हारे सुहृद् और भाई-बन्धु तुमपर ही अवलम्बित होकर जीवन-निर्वाह करें।

भूमिदानका महत्त्व

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! 'यह देना चाहिये, वह देना चाहिये' कहकर श्रुति बड़े आदरके साथ दानका विधान करती है तथा शास्त्रोंमें राजाओंके लिये अनेकों प्रकारके दानकी आज्ञा है; किंतु उन सब दानोंमें कौन-सा दान सबसे उत्तम है?

भीष्मजीने कहा—बेटा! सब दानोंमें पृथ्वीदान सबसे बढ़कर माना गया है। पृथ्वी अचल और अक्षय है, वह मनुष्योंकी समस्त उत्तम कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है। वस्त्र, रत्न, पशु और धान-जौ आदि नाना प्रकारके अन्न पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं। अतः पृथ्वीका दान करनेवाला मनुष्य बहुत कालतक समृद्धिशाली रहकर सुख भोगता है। जबतक पृथ्वी कायम रहती है तबतक भूमिदान करनेवाला

मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता ही रहता है। इस जगत्में भूमिदानसे बढ़कर और कोई दान नहीं है। हमने सुना है, जिन लोगोंने थोड़ी-सी भी पृथ्वी दान की है, वे भूमिदानका पूर्ण फल पाकर उसका उपभोग करते हैं। जो इस अक्षय पृथ्वीका दान करता है, वह दूसरे जन्ममें मनुष्य होकर पृथ्वीका स्वामी होता है। धर्मशास्त्रोंका सिद्धान्त है कि जैसा दान किया जाता है वैसा भोग मिलता है। संग्राममें शरीरका त्याग करे अथवा इस पृथ्वीको दान दे—ये दोनों ही कार्य क्षत्रियोंको उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाले हैं। दानमें दी हुई पृथ्वी दाताको पवित्र कर देती है। कितना ही बड़ा पशुपी, ब्रह्महृत्यारा और असत्यवादी क्यों न हो, दानमें दी हुई पृथ्वी दाताके पापको धो-बहाकर उसे सर्वथा निष्पाप कर देती है।

साधु पुण्य पापी राजाओंसे भी पृथ्वीका दान से लेते हैं; किंतु और किसी वस्तुका दान नहीं स्वीकार करते। अधोप्य पात्रको भूमिदान सेनाका अधिकार नहीं है। जिस भूमिको दानमें दे दिया जाय, उससे स्वयं काम नहीं लेना चाहिये। जोबिका न होनेके कारण मनुष्य बलशर्म पढ़कर जो कुछ पाप कर डालता है, वह सारा पाप गौचर्मके बराबर भी भूमिदान करनेसे धुल जाता है। जो राजा कठोर कर्म करनेवाले और पापपरायण हैं, उन्हें पापमुक्त होनेके लिये इस परम पावन पृथ्वीदानका उपदेश करना चाहिये। प्राचीन कालके लोग ऐसा मानते थे कि जो अश्वमेध-यज्ञ करता है अथवा जो साधु पुण्यको पृथ्वीदान करता है, इन दोनोंमें बहुत कम अन्तर है। जो पृथ्वीका दान करता है, उसे तप, यज्ञ, विद्या, मुशालता, सोमका अभाव, सत्यवादिता, गुरु-श्रुत्या और देवाराधनका भी फल मिल जाता है। जो अपने स्वामीका भला करनेके लिये रणभूमिमें मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं, ये भी भूमिदान करनेवाले पुण्यसे आगे नहीं बढ़ते। जैसे माता अपने बच्चेको सवा दूध पिलाकर पालती है, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकारके रस देकर भूमिदाताके ऊपर अनुग्रह करती है। मृत्यु, काल, वषट्, तमोगुण, चारुण अग्नि और भयंकर पाश—ये भूमिदान करनेवालेके पास नहीं फटकने पाते। पृथ्वीका दान करनेवाला शान्तिचित्त मनुष्य वेवता और पितरोंको भी तृप्त कर देता है। दुर्बल, जोबिकाके बिना बुझी और भूलके फट्टसे मरते हुए ब्राह्मणको उपजाऊ भूमिदान करनेवाला मनुष्य यज्ञका फल पाता है। जैसे बछड़ेके प्रति वात्सल्यभावसे भरी हुई गौ अपने पनासे दूध बहाती हुई उसे पिलानेके लिये बौड़ती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी भूमिदान करनेवालेको सुख पहुँचाती है। जो मनुष्य जोती, बोयी और उपजो हुई लेतीसे भरी भूमिदान करता है अथवा विशाल भवन बनवाकर देता है, उसको समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं। जो सवाचारी अग्निहोवी और उत्तम व्रतमें संलग्न ब्राह्मणको भूमिदान करता है, उसे कमी विपरितप्रस्त नहीं होना पड़ता। जैसे चन्द्रमाकी कला प्रतिबिम्ब बढ़ती है, उसी प्रकार दान की हुई पृथ्वीमें जितनी बार फसल पैदा होती है, उतनी ही उसके दानका फल बढ़ता जाता है। इस विषयमें प्राचीन बातोंके जानकार लोग पृथ्वीकी गामो हुई एक गाया कहा करते हैं, जिसे सुनकर परशुरामजीने सम्पूर्ण पृथ्वी करयपजीको दान कर दी थी। यह गाया इस प्रकार है—(पृथ्वी कहती है—) 'मुझे दानमें दो और मुझे ही दानके रूपमें ग्रहण करो। मुझे देकर मुझे ही पाओगे; क्योंकि मनुष्य इस लोकमें जो कुछ दान करता है, वही उसे परलोकमें मिसता है।' जो मनुष्य धाड़कालमें

पृथ्वीकी इस वेवतुल्य गायाका पाठ करता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। अत्यन्त प्रबल कृत्या (मारण-शक्ति) के प्रयोगसे जो मय प्राप्त होता है, उसको शान्त करनेका सबसे महान् साधन पृथ्वीका दान ही है। भूमिदान करनेके मनुष्य अपने आगे-पीछेको दस पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो वेदके समान माननीय इस भूमिगायाको जानता है, वह भी अपनी दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। यह पृथ्वी सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्पत्तिका स्थान है और अग्नि इसका अधिष्ठाता देवता है। राजाको राजासिंहासनपर अमिषित्त करनेके बाव उसे पृथ्वीकी बतायी हुई गाया सुना देनी चाहिये, जिससे वह भूमिका दान करे और सत्पुरुषोंके हाथसे उन्हें भी हुई वृत्ति छीन न से।

जिनका राजा धर्मको न जाननेवाला और नास्तिक होता है, वे लोग न सुलसे सोते हैं और न सुलसे जागते हैं, अपितु उस राजाके बुराचारसे सदा उद्विग्न रहते हैं। ऐसे राजाके राज्यमें योग-क्षेम नहीं प्राप्त होता। किंतु जिस देशका राजा बुद्धिमान् और धार्मिक होता है वहाँके लोग सुलसे सोते और सुलसे जागते हैं। वे अपने राजाके सद्ब्यवहार और सुन्दर राज्य-व्यवस्थासे अत्यन्त संतुष्ट रहते हैं। उस राज्यमें सम्पत्त पर्या होती तथा वहाँकी प्रजा योग-क्षेमसे सम्पन्न एवं अपने शुभकर्मोंसे समृद्धिशालिनी होती है। जो पृथ्वी दान करता है, वही कुलीन, वही बन्धु, वही पुण्यात्मा, वही दाता और वही पराक्रमी है। जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणको धन-धान्यसे सम्पन्न भूमिदान करते हैं, वे इस पृथ्वीपर भूमिके समान वेवोप्यमान होते हैं। जैसे जमीनमें बोये हुए बीज अधिक अन्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमिदान करनेसे सब प्रकारकी कामनाएँ सफल होती हैं। आदित्य, चरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अग्नि और मगवान् शंकर—ये सभी भूमिदान करनेवालेका आवर करते हैं। समस्त जीव पृथ्वीसे ही उत्पन्न और पृथ्वीमें ही सोन होते हैं। अष्टज, पिण्डज, स्वेदज और उद्भुज्ज—इन चार प्रकारके प्राणियोंका शरीर पृथ्वीम ही कार्य है। पृथ्वी ही इस जगत्की माता और पिता है, इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है।

युधिष्ठिर! इस विषयमें जानकार लोग बृहस्पति और इन्द्रके संवादपर प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। प्राचीन कालमें जब इन्द्रने बहुत-सी बलिषा देकर बढ़े-बढ़े सो यमोंका अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो विद्वानोंमें श्रेष्ठ बृहस्पतिजीसे पूछा—'मगवान्! किस वस्तुका दान करनेसे स्वर्गका सुख प्राप्त होता है? जिसका फल अनाय और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हो, वही दान मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।' बृहस्पतिजीने कहा—'इन्द्र! जो बुद्धिमान् मुर्खों, जो

और पृथ्वीका दान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। मैं तो भूमिदानसे बढ़कर और किसी दानको नहीं मानता। अन्य विद्वानोंकी भी यही सम्मति है। जो अपने स्वामीका भला करनेके लिये युद्धमें मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो योगयुक्त होकर ब्रह्मलोकमें जाते हैं, वे भी भूमिदान करनेवालेसे आगे नहीं बढ़ते। भूमिदान करनेवाला मनुष्य अपनी पांच पीढ़ीतकके पूर्वजोंका और छः पीढ़ियोंतक पृथ्वीपर आनेवाली संतानोंका—इस तरह कुल ग्यारह पीढ़ियोंका उद्धार करता है। जो रत्नोंकी दक्षिणासे युक्त पृथ्वीका दान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। भूमिदान करनेवालेको परलोकमें मधु, घी, दूध और दहीकी धारा बहानेवाली नदियां तृप्त करती हैं। राजा भूमिदान करनेसे सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। भूमिदानसे बढ़कर और कोई दान नहीं है। जो समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको शस्त्रोंसे जीतकर ब्राह्मणको दान दे देता है, उसकी कीर्ति संसारके लोग तबतक गाया करते हैं जबतक यह पृथ्वी कायम रहती है। जो परम पवित्र और समृद्धिरूपी रससे भरी हुई पृथ्वीका दान करता है, उसको उस दानके प्रभावसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है। जो राजा ऐश्वर्य और सुख चाहता हो, उसे सदा सुपात ब्राह्मणको भूमिदान करना चाहिये। मनुष्य पृथ्वी-दानके साथ ही समुद्र, नदी, पर्वत, वन, तालाब, कुआं, झरना, सरोवर, स्नेह (घृत आदि) और सब प्रकारके रसोंके दानका भी फल प्राप्त करता है। बहुत-सी दक्षिणा देकर अग्निष्टोम आदि यज्ञ करनेपर भी उस फलकी प्राप्ति नहीं होती, जो भूमिदान करनेपर मिलता है। भूमिका दान करनेवाला अपनी दस पीढ़ियोंका उद्धार करता है और देकर छीन लेनेवाला मनुष्य अपनी दस पीढ़ियोंको नरकमें डकेलता है तथा स्वयं भी नरकमें पड़ता है। जो देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तथा जो देकर फिर ले लेता है, वह मृत्युकी आज्ञासे बरुणपाशमें बंधकर तरह-तरहके कष्ट पाता है। जिसकी जीविकाका कोई साधन नहीं है ऐसे

ब्राह्मणकी दूसरोंसे मिली हुई वृत्ति कभी नहीं छीननी चाहिये। वरिद्र ब्राह्मण अपना खेत छिन जानेपर दुखी होकर जो आंसू बहाते हैं, वह छीननेवालेको तीन पीढ़ीका नाश कर देता है। जो राज्यसे भ्रष्ट हुए राजाको फिर राजसिंहासनपर बिठा देता है, वह पुरुष स्वर्गमें जाता है। जिस भूमिपर गन्ना, जौ अथवा गेहूँकी खेती लहलहा रही हो, जहाँ गौ और घोड़े आदि बाहनोंकी भरमार हो, जिसके भीतर खजाना गड़ा हुआ हो तथा जो सब प्रकारके रत्नमय उपकरणोंसे अलंकृत हो, ऐसी भूमिको अपने बाहुबलसे जीतकर जो राजा दान कर देता है, उसे अक्षयलोक मिलते हैं, उसका वह दान भूमियज्ञ कहलाता है। जो पुरुष पृथ्वीका दान करता है, वह अपने सब पापोंका नाश करके विशुद्ध और सत्पुरुषोंके आदरका पात्र हो जाता है। जगत्में सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं। जैसे पानीमें पड़ी हुई तेलकी बूंद सब ओर फैल जाती है, उसी प्रकार दान की हुई भूमिमें जितना-जितना अन्न पैदा होता है, उतना-ही-उतना उसके दानका महत्त्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी-दान करनेवाले मनुष्यको अमृत उत्पन्न करनेवाली भूमि प्राप्त होती है। भूमि-दानके समान दान, माताके समान गुरु, सत्यके समान धर्म और दानके समान कोई खजाना नहीं है।

भीष्मजी कहते हैं—बृहस्पतिजीके मुंहसे भूमि-दानका यह माहात्म्य सुनकर इच्छने धन और रत्नोंसे भरी हुई यह पृथ्वी उन्हें दान कर दी। जो पुरुष श्राद्धके समय पृथ्वी-दानके इस माहात्म्यको सुनाता है, उसके श्राद्धकर्ममें पितरोंकी अर्पण किये हुए भाग राक्षस और असुर नहीं लेने पाते। पितरोंके निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय होता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिये विद्वान् पुरुषको चाहिये कि श्राद्धमें भोजन करते हुए ब्राह्मणोंको यह भूमि-दानका माहात्म्य अवश्य सुनावें। युधिष्ठिर! इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने सब दानोंमें श्रेष्ठ पृथ्वी-दानका महत्त्व सुनाया है।

अन्न, सुवर्ण और जल आदि दान करनेका माहात्म्य

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! जिस राजाको दान करनेकी इच्छा हो, वह इस लोकमें गुणवान् ब्राह्मणोंको किन-किन वस्तुओंका दान करे? किन्तु वस्तुको देनेसे ब्राह्मण तुरन्त प्रसन्न हो जाते हैं? कौन-सा दान इस लोक और परलोकमें भी फल देनेवाला होता है? इस विषयका आप विस्तारसे वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! पूर्वकालकी बात है, एक बार मैंने देवर्षि नारदजीसे इस विषयमें प्रश्न किया था, उन्होंने मेरे प्रश्नके उत्तरमें जो कुछ कहा, वही तुम्हें बता रहा हूँ, सुनी।

नारदजीने कहा—देवता और ऋषि अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं। अन्नसे ही लोकयात्राका निर्वाह होता है और उसीसे बुद्धिको स्फूर्ति प्राप्त होती है। अन्न ही सबका आधार है।

अन्नके समान न कोई दान था और न होगा; इसलिये मनुष्य अधिकतर अन्नका ही दान करना चाहते हैं। अन्न शरीरके बलको बढ़ानेवाला है, अन्नके ही आधारपर प्राण टिके हुए हैं और सम्पूर्ण जगत्को अन्नने ही धारण कर रखा है। संसारमें गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी भी अन्नसे ही जीते हैं। अन्नसे ही सबके प्राणोंकी रक्षा होनी है, यह बात किसीसे छिपी नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता हो, यह अन्नके लिये दुबो, बाल-बच्चोंवाले महात्मा ब्राह्मणको और संन्यासीको अन्न दान करे। जो याचना करनेवाले मुषात्र ब्राह्मणको अन्नदान देता है, वह परलोकमें अपने लिये एक अच्छा खजाना संग्रह करता है। रास्तेका थका-माँदा बूढ़ा राहगीर यदि घरपर आ जाय तो अपना कल्याण चाहनेवाले गृहस्थको उस आदरणीय अतिथि-का सत्कार करना चाहिये। जो पुण्य मनमें उठे हुए क्रीडको बमाकर और झह छोड़कर सर्वथाअपूर्वक अन्नदान करता है, उसे इस लोक और परलोकमें भी सुख मिलता है। अपने घर-पर नीच-से-नीच मनुष्य भी आ जाय तो उसका अपमान नहीं करना चाहिये। चाण्डाल और कुत्तेको विद्या हुआ अन्न भी कभी ध्यय नहीं जाता। जो मनुष्य कष्ट में पड़े हुए अपरिचित राहगीको प्रसन्नतापूर्वक अन्न देता है, उसे महान् धर्मकी प्राप्ति होती है। जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों और अतिथियोंको भी अन्न देकर संतुष्ट करता है, वह विशेष पुण्यफलका भागी होता है। जो महान् पातक करके भी याचक मनुष्यको और उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणको अन्न देता है, वह अपने पापके कारण मोहमें नहीं पड़ता। अन्नका दान ब्राह्मणको और शूद्रको भी देनेसे महान् फल होता है। यदि ब्राह्मण अन्नकी माचना करे तो उससे पौत्र, शास्ता, वेदाध्ययन और निवासस्थान आदिके विषयमें प्रश्न न करने लगे, सुरत ही उसकी सेवामें अन्न उपस्थित करे। जैसे किसान अच्छी धुट्टि मन्तरा करते हैं, उसी प्रकार पितर भी यह सोचा करते हैं कि 'क्या कभी हमारा भी पुत्र या पौत्र अन्नदान करेगा?' ब्राह्मण एक महान् प्राणी है, वह यदि स्वयं अन्नको याचना करता है तो कोई सकाम मनुष्य हो या निष्काम, वह उसे दान करके अवश्य पुण्य प्राप्त करे। ब्राह्मण सय मनुष्योंका अतिथि और सबसे पहले भोजनका अधिकारी है। निशुक्र ब्राह्मण जिस घरपर जाते हैं, वहाँ से यदि सत्कारपूर्वक भिक्षा पाकर सौटें तो उस घरकी सम्पत्ति बढ़ती है। जो मनुष्य इस लोकमें सदा अन्न, गृह और मिष्टान्नका दान करता है, वह देवताओंसे सम्मानित होकर स्वर्गलोकमें निवास करता है। अन्न ही मनुष्योंके प्राण है, अतः अन्न-दान करनेवाला मनुष्य परु, पुत्र, धन, भोग, बल और रूप भी प्राप्त करता है। जो पुण्य अन्नदान करता है, वह संसारमें प्राण-

वाता और सर्वस्व देनेवाला कहलाता है। अतिथि ब्राह्मण-की विधिपूर्वक अन्नदान देकर मनुष्य परलोकमें सुख पाता है और देवता भी उसका आदर करते हैं।

युधिष्ठिर। ब्राह्मण सर्वथेष्ठ प्राणी और उत्तम क्षत्र है, वहाँ जो बीज बोया जाता है, वह महान् पुण्यफल देनेवाला होता है। अन्नका दान ही एक ऐसा दान है, जो दाता और भोक्ता दोनोंको प्रत्यक्षरूपसे संतोष देनेवाला होता है। इसके सिवा और जितने दान हैं, उनका फल तो परोक्ष है। अन्नसे ही संतानकी उत्पत्ति होती है, अन्नसे ही धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धि होती है और अन्न ही रोगोंके नाशका कारण है। पूर्वकालमें प्रजापतिने अन्नको अमृत बतलाया है। अन्नका आहार न मिलनेपर शरीरने रहनेवाले पाँचों तत्व नष्ट हो जाते हैं। यदि अन्न खानेको न मिले तो बड़े-बड़े बलवानोंका बल भी क्षीण हो जाता है। अन्नके बिना आमन्त्रण, विवाह और यज्ञ भी नहीं हो सकते। उसके बिना वेदका ज्ञान भी भूल जाता है। यह सम्पूर्ण घरावर जगत् अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है। अतः विद्वानोंकी चाहिये कि धर्मके लिये अन्नका दान अवश्य करें। अन्न देनेवाले मनुष्यके बल, ओज, यश और कौशिकी तीनों सौर्षोंमें वित्तार होता है। जो घरपर आये हुए पाचकको अन्न देता है, वह सब प्राणियोंको प्राण और तेजका दान करता है।

भीष्मजी कहते हैं—राजन्। नारदजीने जब इस प्रकार मुझे अन्नदानका भाहात्म्य बतलाया, तबने मैं सदा अन्नदान किया करता था। तुम भी ईर्ष्या और जलन त्यागकर सदा अन्न देते रहना। ब्रह्माजोंके पुत्र भगवान् अत्रिवाचन है कि 'जो मुषणका दान करते हैं, वे मानो याचकको सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं।' राजा हरिश्चन्द्रने कहा है कि 'मुषणं परम पवित्र, आपु ब्रह्मदेवाता और पितरोंको असाय-गति प्रदान करनेवाला है।' मनुजी कहते हैं—'जलका दान सब दानोंसे बड़कर है।' इसलिये कुआँ, बावड़ी और पोतरे खुदवाने चाहिये। जिसके खुदवाये हुए कुएँमें अच्छी तरह पानी निकतकर सदा भोगोंके काम आता है, उस मनुष्यका आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिसके खुदवाये हुए जलाशयमें सदा गौ, ब्राह्मण और सायु पुण्य पानी पीते हैं, उसके समस्त कुत्ता उद्धार हो जाता है। जिसके बनवाये हुए तालाबमें गरमोंके दिनोंमें भी पानी मौजूद रहता है, वह कभी मरनेपर विपत्तिमें नहीं पड़ता। जो दान करनेसे भगवान् बृहस्पति, पूषा, भग, अश्विनोत्तुमार और अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। घृत सबसे उत्तम औषध और यज्ञकी सर्वथेष्ठ मनुष्य है। घृ-रसमें उत्तम रस है और फलदायक यान्त्रिकी

देनेवाला है। जिसे फल, यश और पुष्टि प्राप्त करनेकी इच्छा हो, वह पुरुष मनको वशमें करके पवित्र भावसे प्रति-दिन ब्राह्मणोंको घृत-दान करे। जो आश्विनके महीनेमें ब्राह्मणोंको घृत-दान करता है, उसे अश्विनीकुमार प्रसन्न होकर सुन्दर रूप देते हैं। जो धी मिलाया हुआ खीर ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, उसके घरपर कभी राक्षसोंका आक्रमण नहीं होता। जो पानीसे भरा हुआ कमण्डलु दान करता है, वह कभी प्याससे नहीं मरता। उसके पास सब प्रकारकी आवश्यक सामग्री मौजूद रहती है और वह संकटमें नहीं पड़ता। जो अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होकर ब्राह्मणके समक्ष विनययुक्त व्यवहार करता है, वह दानके छठे अंशका पुण्य प्राप्त करता है। जो सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणोंको भोजन बनाने और तापनेके लिये लकड़ियाँ देता है, उसकी सभी कामनाएँ और नाना प्रकारके कार्य सिद्ध होते हैं तथा वह शत्रुओंके ऊपर रहकर अपने तेजस्वी शरीरसे देदीप्यमान होता है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर सदा अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं, उसके पशुओंकी हानि नहीं होती और वह संग्राममें विजयी होता है। जो पुरुष छाता दान करता है, उसे पुत्र और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। उसके नेत्रमें कोई रोग नहीं होता और उसे सदा यज्ञका भाग मिलता है। जो गरमी और बरसातके महीनोंमें छाता दान करता है, उसके मनमें कभी संताप नहीं होता। कठिन-से-कठिन संकटसे भी वह शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है। शाण्डिल्य ऋषिका वचन है कि 'रथ या बलगाड़ीका दान उपर्युक्त सब दानोंके बराबर है।'

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! गरमीके दिनोंमें जिसके पेर जल रहे हों ऐसे ब्राह्मणकी जो जूता पहनाता है, उसको क्या फल मिलता है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! जो एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मणोंके लिये जूते दान करता है, वह अपने सब कण्ठकों (शत्रुओं) को मसल डालता है और कठिन विपत्तिसे भी पार हो जाता है।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! तिल, भूमि, गौ और अन्नका दान करनेसे जो फल मिलता है, उसका फिरसे वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—कुन्तीनन्दन ! तिल-दानका फल सुनो—ब्रह्माजीने जो तिल उत्पन्न किया है, वह पितरोंका सर्वश्रेष्ठ भोजन है; इसलिये तिल-दान करनेसे पितरोंको बड़ी प्रसन्नता होती है। जो माघ मासमें ब्राह्मणोंको तिल-दान करता है, उसे नरक नहीं देखना पड़ता। जो तिलसे पितरोंका पूजन करता है, वह मानो सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान कर लेता

है। तिल पौष्टिक पदार्थ है, वह सुन्दर रूप देनेवाला और पापनाशक है; इसलिये तिलका दान सब दानोंसे बढ़कर है। बुद्धिमान् महर्षि आपस्तम्ब, शङ्ख, लिखित और गौतम—ये तिलोंका दान करके दिव्य लोकको प्राप्त हुए हैं। ये सभी ब्राह्मण स्त्री-समागमसे अलग रहकर तिलोंका हवन किया करते थे। सब दानोंमें तिलका दान अक्षय कहलाता है। पूर्वकालमें राजर्षि कुशिकने हविष्य समाप्त हो जानेपर तिलोंसे ही हवन करके तीनों अग्नियोंको तृप्त किया था, इससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई। जो लोग गौओंको शीत और वर्षासे बचानेके लिये घर बनवाते हैं, उनकी सात पीढ़ियोंका उद्धार हो जाता है। जो बोनैके लिये खेत दान करते हैं, उन्हें उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। रत्नगर्भा पृथ्वीका दान करनेसे वंशकी वृद्धि होती है। जो भूमि ऊसर, जली हुई और श्मशानके निकट हो तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते हों, उसे ब्राह्मणको दान नहीं देना चाहिये। जो दूसरोंकी जमीनमें श्राद्ध करता है अथवा दूसरोंकी भूमि दानमें देता है, उसके श्राद्ध और दानका फल पितरोंके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है; इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको अधिक नहीं तो थोड़े-सी भूमि अवश्य खरीदकर दान करनी चाहिये। अपनी जमीनमें दिया हुआ पिण्ड अक्षय होता है। वन, पर्वत, नदी और तीर्थोंका कोई स्वामी नहीं होता, अतः वहाँ श्राद्ध करनेके लिये भूमि खरीदनेकी आवश्यकता नहीं है।

युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैंने तुम्हें भूमिदानका फल बतलाया, इससे आगे गोदानका फल बतला रहा हूँ। गौएँ सम्पूर्ण तपस्वियोंसे बढ़कर हैं, इसलिये भगवान् शंकरने गौओंके साथ रहकर तप किया था। जिस ब्रह्मलोकमें सिद्ध ब्रह्मर्षि भी जानेकी इच्छा करते हैं, वहाँ ये गौएँ चन्द्रमाके साथ निवास करती हैं। ये अपने दूध, बही, घी, गोबर, चमड़ा, हड्डी, सींग और बालोंसे भी जगत्का उपकार करती रहती हैं। इन्हें सर्दी-गर्मी और वर्षाका कष्ट विचलित नहीं करता। ये गौएँ सदा ही अपना काम किया करती हैं, इसलिये ये ब्राह्मणोंके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर निवास करती हैं। इसीसे गौ और ब्राह्मणको विद्वान् पुरुष एक बताते हैं। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मणोंको गोदान करता है, वह संकटमें पड़ा हो तो भी उस कठिन विपत्तिसे मुक्त हो जाता है। देवराज इन्द्रका वचन है कि 'गौओंका दुग्ध अमृत है।' इसलिये जो दूध देनेवाली गाय दान करता है, वह मानो अमृतका ही दान करता है। वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं कि गौदुग्धके हविष्यका यदि अग्निमें हवन किया जाय तो वह अविनाशी फल देनेवाला होता है; अतः जो धेनु दान करता है, वह हविष्यका ही दान करता है। बल स्वर्गका मूर्तिमान् स्वरूप है। जो गुणवान्

ब्राह्मणको बंस दान करता है, उसका स्वर्गलोकमें सम्मान होता है। गौएँ प्राणियों (को दूध पिलाकर पालनेके कारण उन) के प्राण कहलाती हैं, इसलिये जो दूध देनेवाली गौ दान देता है, वह भानो प्राण-दान करता है। वेदके विद्वान् कहते हैं कि गौएँ समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाली हैं; इसलिये जो धेनु दान करता है, वह सबको शरण देनेवाला है। जो मनुष्य अथ करनेके लिये गौ माँग रहा हो उसको और नास्तिक, कसाई तथा गोसे जीविका चलानेवालेको भी गौ नहीं देनी चाहिये। वैसे पापियोंको गौ देनेवाला पुण्य अक्षय नरकमें पड़ता है, ऐसा महापियोंका वचन है। जो दुबली हो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो ठाँठ, रोगिणी, किसी अङ्गसे होन और सूड़ी हो, ऐसी गौ ब्राह्मणको नहीं देनी चाहिये।

इस प्रकार यह गोदान, तिलदान और भूमिदानका महत्त्व बतलाया गया, अब पुनः अन्नदानकी महिमा सुनो। अन्न-दान सब दानोंमें प्रधान है। राजा रन्तिदेवने अन्नका दान करके ही स्वर्गलोक प्राप्त किया। जो राजा धके-मदि मूखे-मनुष्यको अन्न-दान करता है, वह ब्रह्माजीके परमधामको

प्राप्त होता है। अन्न-दान करनेवाले पुरुष जिस प्रकार कल्याणके भागी होते हैं, वैसे कल्याण सोना, बस्त्र या और किसी वस्तुका दान करनेसे नहीं प्राप्त होता। अन्न प्रथम द्रव्य है, वह उत्तम सवमीका स्वरूप माना गया है। अन्नने ही प्राण, तेज, धीमं और बलकी पुष्टि होती है। पराशर मुनिका वचन है कि 'जो मनुष्य सदा एकाग्रचित्त होकर अन्नका दान करता है, उसपर कभी दुःख नहीं पड़ता।' मनुष्यको प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधिसे देवताओंको पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये। जो पुरुष जिस अन्नका भोजन करता है, उसके देवता भी वही अन्न ग्रहण करते हैं, जो कार्तिकके शुक्लपक्षमें अन्नका दान करता है, वह सब प्रकारके संकटोंसे पार होकर मृत्युके परचात अक्षय सुखका उपभोग करता है। जो पुरुष स्वयं भूसा रहकर एकाग्रचित्तसे अतिपापको अन्न-दान करता है, वह ब्रह्मवैसाओंके लोकमें जाता है। अन्नदाता मनुष्य कठिन-से-कठिन आपत्तियोंमें पड़नेपर भी उसके पार हो जाता है और पापोंसे मुक्त होकर सारी बुराइयोंको त्याग देता है। इस प्रकार मैंने अन्न, तिल, भूमि और गोओंके दानका माहात्म्य बतलाया।

नाना प्रकारके दानोंका वर्णन तथा ब्राह्मणका धन लेनेसे होनेवाले अनिष्टके सम्बन्धमें राजा नृगकी कथा

युधिष्ठिरने पृथ्वा—पितामह! मैंने अन्नदानकी विशेष प्रशंसा सुनी; अब जलदान करनेसे कंसे-कंसे महान् फलकी प्राप्ति होती है, इस विषयको मैं विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ।

भोष्मजीने कहा—राजन्! मनुष्य अन्नदान और जलदान करके जिस महान् फलको पाता है, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो। कोई भी दान अन्नदानसे बढ़कर नहीं है। समस्त प्राणी अन्नसे ही जीवन धारण करते हैं, इसलिये संसारमें अन्नकी ही सर्वोत्तम बतलाया गया है। अन्नसे ही प्राणियोंके तेज और बलकी वृद्धि होती है, अतः प्रजापतिने अन्नके दानको ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। पृथ्वीकालमें महाराज शिबिने कबूतरकी रक्षाके लिये अपने प्राण देकर जिस गतिको प्राप्त किया था, ब्राह्मणको अन्नदान करनेसे भी वही गति मिलती है। किंतु अन्नकी उत्पत्ति अन्नसे ही होती है। पानीके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यहीसे स्वामी भगवान् सोम भी जलसे ही प्रकट हुए हैं; अमृत, सुधा, स्वधा, अन्न, ओषधि, तृण और सताएँ भी जलसे ही उत्पन्न

होती हैं, जिनसे देहधारियोंके प्राणोंकी पुष्टि होती है। देवताओंका अन्न अमृत, नागोंका अन्न सुधा, पितरोंका अन्न स्वधा और पराओं का अन्न तृण-सता आदि है। मनोयी पुरुषोंने अन्नको ही मनुष्योंका प्राण बतलाया है; किंतु सब प्रकारका अन्न जलसे ही उत्पन्न होता है, अतः जलदानसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो, उसे प्रतिदिन जलका दान करना चाहिये। यह धन, धान और आयुको बढ़ानेवाला है। जलदाता पुरुषको समस्त कामन्दार पूर्ण होती हैं और जगत्में उसकी सनातन कीर्तिका विस्तार होता है। यह पापोंसे मुक्त होकर मरनेके परचात अक्षय आनन्दका अनुभव करता है।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! तिलदान, बीपदान और स्वरदानका माहात्म्य मुझे फिरसे बतलाइये।

भोष्मजीने कहा—राजन्! बीपदान करनेवाला मनुष्य अपने पितरोंका उद्धार कर देता है, इसलिये देवता और पितरोंके उद्देश्यसे सदा बीपदान करते रहना चाहिये; इन्हीं अपने नेत्रोंका क्षेत्र बढ़ता है। रत्नदानका भी बहुत

जा गया है। जो ब्राह्मण दानमें रत्न लेकर उसे बेचकर
 जाता है, उसके निम्न वह प्रतिग्रह भयदायक नहीं होता।
 ब्राह्मण किसी दानाने रत्न दानमें लेकर उसे ब्राह्मणोंको
 देता है तो उस दानके देने और लेनेवाले दोनोंको ही
 अथ पुत्र्य होता है। जो पुत्र्य स्वयं धर्ममर्यादामें स्थित
 कर अपने ही समान स्थितिवाले ब्राह्मणको दानमें मिली
 हुई वस्तु दान करता है, उन दोनोंको अथ धर्मकी प्रति
 होती है—यह धर्मज ननुका वचन है। जो ननुष्य वस्त्रदान
 करता है, वह नुन्दर वस्त्र और नुन्दर वेप धारण करनेवाला
 होता है। युधिष्ठिर! गौ, मुर्ग और तिलके दानका
 माहात्म्यका तो मैंने अनेकों बार शास्त्रीय प्रमाण देकर बर्णन
 किया है।

होती है तथा उसके सम्पूर्ण अशुभ और दुःस्वप्न नष्ट हो
 जाते हैं।
 कुराचारी, पापी, लोभी, असत्यवादी तथा देवयज्ञ
 और श्राद्धकर्म न करनेवाले ब्राह्मणको किसी तरह गौ नहीं
 देनी चाहिये। जिनके बहुत-सी संतानें हों ऐसे याचक,
 श्रोत्रिय तथा अग्निहोत्री ब्राह्मणको दस गौ-दान करनेसे
 दाताको अत्यन्त उत्तम लोकोंको प्राप्ति होती है। जो जन्म
 देता है, जो मयसे बचाता है तथा जो जीविका देता है—वे
 तीनों ही पिताके तुल्य हैं। इसलिये वेदान्तनिष्ठ, बृहज्ज,
 जानी, जितेन्द्रिय, शिष्ट, चलशील, प्रियवादी, भूषण पीडित
 होनेपर अनुचित कर्म न करनेवाले और स्त्री-मुत्र आदि
 प्रेमी, सबपर समानमात्र रखनेवाले और स्त्री-मुत्र करना
 दुष्टमन्त्रे युक्त ब्राह्मणकी जीविकाका अवश्य प्रवर्ध करना
 चाहिये। पुत्रात्र ब्राह्मणको गोदान करनेसे जितना पुष्य होता
 है, उसका घन ले लेनेपर उतना ही पाप लगता है। अतः
 किसी भी अवस्थामें ब्राह्मणके घनका अपहरण न करे तथा
 उनकी चिरपौर तो इन्से भी दृष्टि न डाले।
 कुन्तानन्दन! इस विषयमें साधु पुष्य राजा नृपका
 उपाख्यान सुनाया करते हैं। किसी समय ब्राह्मणका घन
 लेनेके कारण राजा नृपको महान् कष्ट उठाना पड़ा था।
 पहलेकी बात है, द्वारकापुरीमें रहनेवाले यदुवंशी बालक पा
 की इच्छामें उधर-उधर घूम रहे थे। इतनेहीमें उन्हें
 महान् कूप दिखायी पड़ा, जिसका ऊपरी भाग घास
 लताओंमें ढका हुआ था। उन बालकोंमें बहुत परिश्रम
 कर कुएँके ऊपरका घास-मूस हटाया तो उन्हें उसके
 बँगा हुआ एक बहुत बड़ा गिरिगट दिखायी दिया।
 हजारोंकी संख्यामें थे, सब मिलकर उस गिरिगटके
 निकालनेके यत्नमें लग गये। किन्तु गिरिगटका गरीर
 समान था, लड़कोंमें उसे रस्तियों और त्रमड़ेकी
 बाँधकर खींचनेके लिये बहुत जोर लगाया, पर वह
 न हुआ। जब बालक उसे निकालनेमें सफल न
 भगवान् श्रीकृष्णके पास जाकर बोले—'हमने जो
 बड़ा गिरिगट देखा है, जो कुएँका सारा आकार
 है; उसे कोई निकालनेवाला नहीं है।'
 यह सुनकर श्रीकृष्ण उस कुएँके पास ग
 उसे बाहर निकालकर उसके पूर्वजन्मका वृत्
 उसने कहा 'भगवन्! पूर्वजन्ममें मैं राज
 हजारों यज्ञोंका अनुष्ठान किया है।' उस
 श्रीकृष्ण बोले—'राजन्! आपने तो स
 किये हैं, आपके द्वारा कमी भी पाप नहीं
 ऐसी दुर्गति क्यों मिली? हमने सुना है

युधिष्ठिरने कहा—दादाजी! आप दानको उत्तम
 विधिसे चितसे बर्णन कीजिये। जिस दानको सभी लोग कर
 सकते हैं तथा वेदोंमें जिसका बर्णन किया गया हो, उसकी
 व्याख्या कीजिये।

भोष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! गाय, भूमि और
 सरस्वती—इन तीनोंका एक ही नाम है गौ। एक नाम-
 बानी इन तीनों वस्तुओंका दान करना चाहिये। इन तीनोंके
 दानका प्रमाण ही फल है। वे तीनों ही ननुष्यकी सम्पूर्ण
 कामनाएँ पूर्ण करनेवाली हैं। जो ब्राह्मण अपने शिष्यको
 वेद-भाषा (सरस्वती) का उपदेश करता है, वह भूमिदान
 और गोदानके समान फलका भागी होता है। इसी प्रकार
 गोदानकी भी प्रशंसा की गयी है। गोदानसे बढ़कर कोई
 दान नहीं है, उसका फल बहुत शीघ्र मिलता है। गौएँ
 सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता कहलाती हैं, वे सबको मुत्र देनेवाली
 हैं। अपना अन्वय्य चाहनेवाले ननुष्यको सदा गौओंकी
 प्रशंसा करके चलना चाहिये। गौओंको लात न मारे,
 गौओंके बीचसे होकर न निकले। वे मङ्गलकी आश्रमभूत
 देवियाँ हैं, उनकी सदा ही पूजा करनी चाहिये। दृढिमान्
 पुष्यको उचित है कि जब गौएँ स्वच्छन्दतापूर्वक चल रही
 हों, अथवा किसी मूले स्थानमें बँठी हों तो उन्हें तंग न करे।
 गौएँ प्याससे पीडित होकर जब अपने स्वामीकी ओर देखती
 हैं (और वह उन्हें पानी नहीं पिताता) तो उसका वन्धु-
 बाणध्वंसोत्सहित नाग हो जाता है। जिनके गोबरसे लोचनेपर
 देवताओंके मन्दिर और पितरोंके श्राद्धके स्थान पवित्र होते हैं,
 उनमें बढ़कर पावन और ज्या ही सकता है? जो एक वर्षतक
 प्रतिदिन भोजनके पहले इन्सेकी गायको एक मुट्ठी घास
 दान करे, वह अपने समस्त कामनाओंको पूर्ण करने-
 की प्राप्ति

बार मिलाकर इक्यासौ सात दो सौ गौएँ ब्राह्मणोंको दान की हैं; उस गोदानका फल कहाँ गया ?'

तब राजा नृगने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा—'प्रभो ! एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश चला गया था। उसके पास एक गाय थी, जो एक दिन अपने स्थानसे भागकर मेरी गोओंके झुंडमें आ मिली। मेरे ग्वालोंने दानके लिये मँगायो हुई एक हजार गोओंमें उसकी भी गिनती करा दी और मैंने उसे एक ब्राह्मणको दान कर दिया। कुछ दिनों बाद जब वह ब्राह्मण परदेशसे लौटा तो अपनी गाय ढूँढ़ने लगा। ढूँढ़ते-ढूँढ़ते वह गाय जब उसे दूसरेके घर मिली तो उसने उस ब्राह्मणसे कहा—'यह मेरी गौ है (अतः मैं इसे ले जाता हूँ)।' इसपर दोनोंमें झगड़ा होने लगा और दोनों ही क्रोधमें भरकर मेरे पास आये। एकने कहा—'महाराज ! यह गौ आपने



मुझे दानमें दी है (और यह ब्राह्मण इसे अपनी बता रहा है)।' दूसरेने कहा—'महाराज ! यास्तवमे यह मेरी गाय है, मुझने इसे चुरा लिया है।' तब मैंने दान लेनेवाले ब्राह्मणसे कहा—'भगवान् ! मैं इस गायके बदले आपको दस हजार गौएँ देता हूँ (आप इन्हें इनकी गाय धांपस दे दीजिये)।' उसने जवाब दिया—'महाराज ! यह गौ देश, कालके अनुरूप,

पूरा दूध देनेवाली, सीधी-सादी और अत्यन्त दयालु स्वभावकी है। इसका दूध बहुत मीठा होता है। धन्य भाग, जो यह मेरे घर आयो ! यह अपने दूधसे प्रतिदिन मेरे मानुहोत्र दुर्बल बच्चेका पालन करती है; मैं इसे कदापि नहीं दे सकता।' यह कहकर वह वहलसे चल दिया। तब मैंने दूसरे ब्राह्मणसे प्रार्थना की 'भगवान् ! आप उसके बदलेमें एक सात गौ लें लीजिये।' वह बोला—'महाराज ! मैं राजाओंका दान नहीं लेता, मुझे तो मेरी यही गौ शोभना दीजिये।' मैंने उसे सोना, चाँदी, रथ और घोड़े सब कुछ देना चाहा, पर वह कुछ न लेकर चुपचाप चला गया। इसी बीचमें कालकी प्रेरणासे मुझे शरीर त्यागना पड़ा और पितृलोकमें पहुँचकर मैं धर्मराजसे मिला। उन्होंने मेरा बहुत आदर-सत्कार किया और कहा—'राजन् ! तुम्हारे पुष्यकर्मोंको तो गिनती ही नहीं है; किन्तु अनजानमें तुमसे एक पाप भी हो गया है। उस पापको पहले भोग लो या पीछे, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करे।' तब मैंने धर्मराजसे कहा—'प्रभो ! पहले मैं पाप ही भोग लूँगा, उसके बाद पुष्यका उपभोग करूँगा।' इतना कहना था कि मैं पुष्यीपर गिरा। उस समय ऋषि स्वरसे बोले हुए धर्मराजकी यह बात कानोमें पड़ी 'राजन् ! एक हजार वर्ष पूर्ण होनेपर तुम्हारे पापकर्मका भोग समाप्त होगा, उस समय भगवान् श्रीकृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम अपने पुष्य कर्मोंके प्रभावसे प्राप्त हुए अशय लोभोंमें जाओगे।' बुझने मिलनेपर मैंने देखा 'मुझे तिर्यग्योनि मिली है और मेरा तिर नौबेकी ओर है।' इस योनिमें भी मेरी स्मरणशक्तिने मेरा साय नहीं छोड़ा था। श्रीकृष्ण ! आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब मुझे आजा दीजिये, मैं स्वर्गको जाऊँगा।"

भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें आजा दे दी और वे उनको प्रणाम करके दिव्य मार्गसे स्वर्गलोकको चले गये। उनके चले जानेपर श्रीकृष्णने इस श्लोकाका गायन किया—'समन्दार मनुष्यकी ब्राह्मणके धनका अपहरण नहीं करना चाहिये। चुराया हुआ ब्राह्मणका धन चोरका उसी मर्ति नारा कर देता है, जैसे ब्राह्मणकी गीने राजा नृगका सर्वनाश किया था।' बुन्तीनन्दन ! यदि सज्जन पुरुष साधु-महात्माओंका सङ्ग करें तो उनका वह सङ्ग ध्यय नहीं जाता। देखो, साधुसमागमके कारण राजा नृगका नरकतो उद्धार हो गया। गोओंका दान करनेसे जैसे उत्तम फल मिलता है, वैसे ही गोधर्मि श्रेष्ठ करने या उन्हें सतानेपर बहुत बड़ा कुफल भोगना पड़ता है; इसलिये गोओंको कभी बच्य नहीं पढ़वाना चाहिये।

प्राणीका इन्द्रसे गोलोक, गोदान और स्वर्ण दक्षिणाकी महिमाका तथा गो-चरोके पापका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! मुझे गोलोकके विषयमें संदेह है। गोदान करनेवाले मनुष्य जिस लोकमें निवास करते हैं, उसका मैं यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! इस विषयमें जानकार गण एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं—एक बार इन्द्रने ब्रह्माजीसे इस प्रकार प्रश्न किया—‘भगवन्! मैं देखता हूँ, गोलोकनिवासी पुरुष अपने तेजसे स्वर्गवासियोंकी कान्ति फीकी करते हुए उन्हें लांघकर आगे चले जाते हैं, इसलिये मेरे मनमें यह संदेह होता है कि गोलोक कैसा है? वहाँ क्या फल मिलता है? वहाँका विशेष गुण क्या है? गोदान करनेवाले पुरुष सब चिन्ताओंसे मुक्त होकर वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं? गोदान न करनेपर भी उसका फल कैसे मिलता है? बहुत दान करनेवाला मनुष्य थोड़ा दान करनेवालेके समान तथा थोड़ा दान करनेवाला पुरुष अधिक दान करनेवालेके तुल्य किस प्रकार हो जाता है? ये सब बातें मुझे यथार्थरूपसे बतलाइये।

ब्रह्माजीने कहा—इन्द्र! गौओंके लोक अनेक प्रकारके हैं। मैं उन सबको देखता हूँ और पतिव्रता स्त्रियाँ भी उन सब लोकोंको देख सकती हैं। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले शुद्धचेता ब्रह्मर्षि तो अपने शुभ कर्मोंके प्रभावसे उन लोकोंमें सशरीर पहुँच जाते हैं। श्रेष्ठ व्रतके आचरणमें लगे हुए योगी पुरुष समाधि-अवस्थामें अथवा मृत्युके समय जब शरीरसे सम्बन्ध त्याग देते हैं तो अपने शुद्धचित्तके द्वारा स्वप्नकी भाँति दीखनेवाले उन लोकोंका यहाँसे भी दर्शन करते हैं। अब तुम उन लोकोंके गुणोंका वर्णन सुनो—वहाँ काल, बुढ़ापा अथवा अग्निका जोर नहीं चलता। किसीका किंचित् भी अमङ्गल नहीं होता। वहाँपर न रोग है, न शोक। इन्द्र! वहाँकी गौएँ अपने मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती हैं, वह सब उन्हें प्राप्त हो जाता है—यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। वे जहाँ जाना चाहती हैं, जाती हैं, जैसे चलना चाहती हैं, चलती हैं और संकल्पमात्रसे ही सम्पूर्ण कामनाओंका उपभोग करती हैं। बावड़ी, तालाब, नदियाँ, तरह-तरहके वन, गृह, पर्वत आदि सभी वस्तुएँ वहाँ उपलब्ध हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंको मनोरम जान पड़ती हैं। वहाँकी वस्तुओंपर सबका समान अधिकार देखा जाता है। इतना विशाल दूसरा कोई लोक नहीं है। जो पुरुष सब कुछ सहनेवाले, क्षमाशील, दयालु, अहिंसेवाले और अहंकाररहित हैं, उन्हींका

गोलोकमें प्रवेश होता है। जो किसीका मांस नहीं खाता, जिसका हृदय पवित्र भावोंसे भरा हुआ है, जो धर्मात्मा माता-पिताका भवत, सत्यवादी, ब्राह्मणोंकी सेवामें संलग्न निन्दासे रहित, गौ और ब्राह्मणोंपर क्रोध न करनेवाला, धर्मपरायण, गुरुसेवक, जीवनभर सत्यका व्रत लेनेवाला, दानी, अपराधीको भी क्षमा देनेवाला, मृदुल, जितेन्द्रिय, देवपूजक, सबका आतिथ्य-सत्कार करनेवाला तथा दयावान् है—ऐसे ही गुणोंवाला मनुष्य उस सनातन एवं अविनाशी गोलोकमें जाता है। परस्त्रीगामी, गुरुहत्यारा, असत्यवादी, बकवादी, ब्राह्मणोंसे वैर रखनेवाला, मित्रद्रोही, ठग, कृतघ्न, शठ, कुटिल, धर्मद्वेषी और ब्रह्महत्यारा—इन सब दोषोंसे युक्त दुरात्मा मनुष्य मनसे भी कभी गोलोकका दर्शन नहीं सकता; क्योंकि वहाँ पुण्यात्माओंका निवास है।

इन्द्र! यह सब मैंने विशेषरूपसे गोलोकका माहात्म्य बतलाया है, अब गोदान करनेवालोंको जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो। जो पुरुष अपनी पैतृक सम्पत्तिसे प्राप्त हुए धन-द्वारा गौएँ खरीदकर दान करता है, वह उस धनसे धर्मपूर्वक उपाजित किये हुए अक्षय लोकोंको प्राप्त हुई हों, उनका हिस्सेसे जो-जो गौएँ न्यायपूर्वक प्राप्त हुई हों, उनका धनसे दाताको अक्षय लोक मिलते हैं। जो पुरुष दानमें लेंकर फिर उसका शुद्ध हृदयसे दान कर देता है, उसे सत्य बोलता, जितेन्द्रिय रहता, गुरु तथा ब्राह्मणके अपसह लेता और क्षमावान् होता है, वह गोलोकमें जा ब्राह्मणको कभी कुवाच्य नहीं बोलना चाहिये और गौओंकी बुराई नहीं करनी चाहिये। जो ब्राह्मण समान वृत्तिसे रहता है, गौओंको घास आदि खिलाने में सत्य एवं धर्ममें परायण रहता है, वह यदि एक गौ को सदा उद्यत रहकर उपयुक्त विधिसे बर्ताव करत सत्यवादी, गुरुसेवक, दक्ष, क्षमाशील, देवभक्त, पवित्र, ज्ञानवान्, धर्मात्मा और अहंकाररश्न्यु हे पूर्वोक्त विधिसे ब्राह्मणको दूध देनेवाली गाय महान् फलकी प्राप्ति होती है। जो सदा एक वृत्तिमें नित्य गोदान करता है, सत्यमें स्थित होता है, वेदोंका स्वाध्याय करता है, जिसके मनमें अहंकार है, जो गौओंका दान देकर प्रसन्न होता

गौओंकी प्रणाम करता है, उसकेो मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो। राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है तथा बहुतसे सुवर्णकी बसिणा देकर यज्ञ करनेसे जो फल मिलता है, उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही फलका भागी होता है—यह सिद्ध संत-महात्मा एवं ऋषियोंका वचन है। जो गो-सेवाका प्रत सेकर प्रतिदिन भोजनसे पहले गौओंकी 'गो-प्रास' अर्पण करता है तथा शान्त एवं निर्लोक होकर सदा सत्यका पालन करता रहता है, वह प्रतिवर्ष एक हजार गोदान करनेके पुण्यका भागी होता है। जो एक वक्षत भोजन करके दूसरे वक्षतके बचाये हुए भोजनसे गाय खरीवकर दान करता है, वह उस गौके जितने रोएँ होते हैं उतने गौओंके दानका अक्षय फल प्राप्त करता है। गौओंके रोष-रोममें असयलोकोंका निवास माना गया है। जो संग्राममें गौओंकी जीतकर उन्हें दान दे देता है, उस पुण्यका वह दान अपनेको बँचकर दान करनेके समान माना जाता है। जो व्रतपरायण पुरुष गौओंके अभावमें तिलकी गौ बदाकर दान देता है, उसको वह गौ बड़े भारी संकटसे पार कर देती है तथा वह ब्रूधकी नदीमें नहाकर प्रसन्न होता है। केवल गौओंका दान कर देना ही प्रशंसाकी धात नहीं है, दान करते समय पात्र, काल, गोविन्द, गोदानकी विधि, समय-शान, ब्राह्मण और गायके अन्तरपर भी विचार कर लेना चाहिये तथा यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह गौ जहाँ जा रही है वहाँ इसे धूप और आगसे कष्ट तो नहीं पहुँचेगा ?

जो स्वाध्यायसम्पन्न, शुद्धयोजि (कुलीन), शान्तचित्त, यज्ञपरायण, पापसे दूरनेवाला, बट्टन, गौओंपर क्षमाका भाव रखनेवाला, मनुसस्वभावाय, शरणागतव्यस्त और जीविकाहीन हो, वही ब्राह्मण गोदानका उत्तम पात्र है। जो जीविकाके बिना बहुत कष्ट या रहा हो तथा जिसको खेती या यज्ञ-हीम करने, प्रसूता स्त्रीकी दूध पिलाने तथा गुप्त-सिद्ध अथवा बालकका पालन-पालन करनेके लिये गौकी आवश्यकता हो, उसको साधारण बैश-कासमें भी दूध देनेवाली गौका दान करना चाहिये। दूध देनेवाली, खरीदेने अथवा विद्यार्थे प्राप्त हुई, पृथ्वीमें प्राणोंको संकटमें डालकर पराश्रमसे प्राप्त की हुई, बड़ेजमें मित्से हुई, संकटसे छुड़ाकर सायी हुई या पालन-योग्यके लिये अपने पास आयी हुई गौ श्रेष्ठ मानी जाती है। हृष्ट-पृष्ट, सीधी-सादी, जवान और उत्तम पण्यवासी गाय प्रशंसनीय मानी गयी है। जैसे गज्जा सब नवियोंमें श्रेष्ठ है उसी प्रकार कश्मिा गौ सब गौओंमें उत्तम है। (गोदानकी विधि इस प्रकार है—) बाता तीन राततक उपवास करके केवल पानीके आधारपर रहे, पृथ्वीपर गायन

करे और गौओंको घास-भूसा खिलाकर पूषं तृप्त करे। तत्परचात् ब्राह्मणोंको भोजन आविसे संतुष्ट करके उन्हें बे गीएँ दान करे, उन गौओंके साथ दूध पीनेवाले हृष्ट-पृष्ट बछड़े भी होने चाहिये तथा गीएँ भी ऐसी हों जो अच्छी तरह चल-फिर सकें। गोदानके परचात् तीन दिनतक केवल गोरस पीकर रहना चाहिये। जो गौ सीधी-सूधी हो, दुहने समय तंग न करती हो, जिसका बछड़ा सुन्दर हो, जो मध्यम सोड़कर भागती न हो—ऐसी गौ दान करनेसे उसके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोंतक बाता परलोकमें मुल भोगता है। जो मनुष्य ब्राह्मणको बोध उठानेमें समर्थ जवान, बसिष्ठ, सीधा-सादा, हल खींचनेवाला और शक्तिशाली बैल दान करता है, वह दस गौ देनेवालेके लोकोंको प्राप्त होता है। जो दुर्गम वनमें फँसे हुए ब्राह्मणों और गौओंका उद्धार करता है, वह एक ही क्षणमें समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा उसे माना प्रकारके दिव्यलोकोंकी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह गौओंसे अनुग्रहीत होकर सर्वत्र पूजित होता है। जो मनुष्य उपर्युक्त विधिसे वनमें रहकर गौओंका अनुसरण (सिवन) करता है तथा निःस्पृह, संयमी और पवित्र होकर घास, पत्ते और गोबर खाता हुआ जीवन ध्यतीत करता है, वह भेदे लोकमें देवताओंके साथ आनन्दपूर्वक निवास करता है अथवा जहाँ रहनेको उसको इच्छा होती है, उहाँ लोकोंमें गमन करता है।

इन्द्रने पृथ्वी—भगवन्! यदि कोई जान-बूझकर दूसरेको गौका अपहरण करे अथवा धनके लोभसे उसे बेच डाले तो उसको क्या गति होती है ?

ब्रह्माजीने कहा—जो उच्छृङ्खलतापरा मांस बेचनेके लिये गौकी हिंसा करके या गोमांस खाते हैं तथा जो स्वार्थका कसाईको गाय माननेकी सहाय देते हैं, वे सब महान् पापके भागी होते हैं। गौको मारनेवाले, उसका मांस खानेवाले तथा उसकी हत्याका अनुमोदन करनेवाले पुरुष गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोंतक नरकमें पड़े रहते हैं। ब्राह्मणका यात मष्ट करनेवासे पुरुषको जैसे तथा जितने पाप लगते हैं, दूसरोंकी गौ चुराने और बेचनेमें भी वे ही दोष बताये गये हैं। जो दूसरोंकी गाय चुराकर ब्राह्मणोंको दान करता है, वह गौके दानका पुण्य भोगनेके लिये जितना समय शास्त्रोंमें बताया गया है उतने ही समयतक नरक भोगता है।

गोदान करनेसे मनुष्य अपनी सात पीढ़ी पहलेके पिताओं और सात पीढ़ी आनेवाली संतानोंका उद्धार करता है; किन्तु यदि उसके साथ सोनेकी बसिणा भी बी जाय तो उस दानका बूना फल मिलता है। सुवर्णका दान सबसे उत्तम दान है, सुवर्णकी बसिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पवित्र करनेवाली

सुवर्ण ही सबसे अधिक पावन है। सुवर्ण सम्पूर्ण पवित्र करनेवाला बताया गया है। इस प्रकार मंत्र संक्षेपमें दक्षिणाकी बात बतायी है। भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! उपर्युक्त उपदेश जीने इन्द्रको दिया, इन्द्रने राजा दशरथको, राजा रथने अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीके, श्रीरामचन्द्रजीने प्रियता लक्ष्मणको और लक्ष्मणने वनवासके समय ऋषियोंको

दिया था। इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस उपदेशको उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ऋषि और धार्मिक राजालोग धारण करते आ रहे हैं। मुझसे मेरे उपाध्याय (परशुरामजी) ने इस विषयका वर्णन किया था। जो ब्राह्मण अपनी मण्डलीमें बैठकर प्रतिदिन इस उपदेशको दुहराता है और यज्ञ तथा गोदानके समय भी इसकी चर्चा करता है, उसको सदा अक्षयलोक प्राप्त होते हैं।

व्रत, नियम और दम आदिकी प्रशंसा तथा गोदानकी विधि

युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी! व्रतों और नियमोंका क्या और कैसा फल बताया गया है? स्वाध्याय करने, दान देने, वेदोंका स्मरण रखने और वेद पढ़ानेका क्या फल होता है? जो स्वयं पढ़कर दूसरोंको पढ़ाता है, उसे किस फलकी प्राप्ति होती है? अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले शूरवीरोंको क्या फल मिलता है? शौच, ब्रह्मचर्यका पालन तथा माता-पिता और आचार्यकी सेवा करनेसे कैसे फलकी प्राप्ति होती है? इन सब बातोंको मैं यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! जो पुरुष शास्त्रोक्त विधिसे किसी व्रतको आरम्भ करके उसको अखण्डरूपसे निभा देते हैं, उन्हें सनातन लोकोंकी प्राप्ति होती है। संसारमें नियमोंके पालनका फल प्रत्यक्ष देखा जाता है, तुमने भी यह यज्ञ और नियमोंका ही फल प्राप्त किया है। वेदोंके सम्यक् स्वाध्यायका फल भी इस लोक और परलोकमें दृष्टिगोचर होता है। वेदाध्ययन करनेवाला पुरुष इहलोकमें भी सुखी होता है और परलोकमें भी आनन्दका अनुभव करता है। राजन्! अब तुम विस्तारके साथ दम (इन्द्रियसंयम) के फलका वर्णन सुनो। जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सुखी और सर्वत्र संतुष्ट रहते हैं। वे जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं और जिस वस्तुकी इच्छा करते हैं, वही उन्हें प्राप्त हो जाती है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन्द्रियनिग्रह करनेवाले पुरुषोंकी समस्त कामनाएँ सर्वत्र पूर्ण होती हैं। वे अपनी तपस्या, पराक्रम, दान तथा नाना प्रकारके यज्ञोंसे स्वर्गलोकमें आनन्द भोगते हैं। दमनशील पुरुष क्षमावान् होते हैं। दानसे दमका ऊँचा दर्जा है। दानी पुरुष ब्राह्मणको कुछ दान करते समय कभी क्रोध भी कर सकता है, किंतु दमका पालन करनेवाला मनुष्य कभी क्रोध नहीं करता; इसलिये दम करनेवाला जो क्रोधरहित होकर दान

करता है, उसे सनातन लोकोंकी प्राप्ति होती है, इससे भी दमकी श्रेष्ठता सिद्ध है। शिष्योंको वेद पढ़ानेवाला अध्यापक अक्षय फल प्राप्त करता है। अग्निमें विधिवत् हवन करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है तथा जो आचार्यसे स्वयं वेद पढ़कर नीतिमान् शिष्योंको पढ़ाता है, उसको भी उपर्युक्त फलकी ही प्राप्ति होती है। गुरुके कर्मोंकी प्रशंसा करनेवाला छात्र स्वर्गमें सत्कार पाता है। वेदाध्ययन, यज्ञ और दान-कर्म तत्पर रहनेवाला तथा युद्ध करके दूसरोंकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय भी स्वर्गमें पूजा जाता है। अपने कर्ममें लगाव वैश्य दान देनेसे महत्-पदको प्राप्त होता है तथा स्वर्गमें नृष्ठानमें लगा हुआ शूद्र उच्च वर्णोंकी सेवासे स्वर्गमें है। शूरवीरोंके अनेकों भेद बतलाये गये हैं, उनके स्वर्ग तथा शूर और शूरवंशियोंको मिलनेवाले फलोंका सुनो। जो यज्ञ करनेमें उत्साहके साथ लगे रहते हैं, वे कहलाते हैं और दृढ़तापूर्वक इन्द्रियोंका दमन कर दमशूर कहते हैं। इसी प्रकार कितने ही सत्यशूर, दानशूर, सांख्यशूर, योगशूर, वनवासशूर, त्यागशूर, आर्जवशूर, मनोनिग्रहशूर, नियमशूर, वेद अध्यापनशूर, गुरुशुभ्रपाशूर, पितृसेवाशूर, शिक्षाशूर और अतिथिपूजनशूर होते हैं—ये अपने कर्मोंसे प्राप्त हुए उत्तम लोकोंमें जाते सम्पूर्ण वेदोंको धारण करने और समस्त लगानेका पुण्य भी सदा सत्य बोलनेवाले बराबर शायद ही हो सकता है। यदि तर एक हजार अश्वमेध यज्ञोंका फल और दस सत्य रखा जाय तो हजार अश्वमेध यज्ञोंका ही पलड़ा भारी होता है। सत्यके प्रभाव से अग्नि प्रज्वलित होती है और सत्यका संचार होता है। सब कुछ सत्यपर ही

पितर और ब्राह्मण सत्यसे ही प्रसन्न होते हैं। सत्य सबसे बड़ा धर्म बताया गया है; अतः सत्यका कभी उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये। श्रुति-मूनि सत्यपरायण, सत्यपरायणी और सत्यप्रतिन होते हैं, इसलिये सत्य सबसे श्रेष्ठ है। सत्य बोलनेवाले मनुष्य स्वर्गलोकमें आनन्द भोगते हैं। इस प्रकार मैंने दम और सत्यसे मिलनेवाले फलका सब प्रकारसे वर्णन किया। जिसका हृदय विनयशील है, वह निःस्वहे स्वर्गमें सम्मानित होता है। अब तुम ब्रह्मचर्यके गुणोंका वर्णन सुनो। जो जन्मसे लेकर मृत्युकालतक ब्रह्मचारी बना रहता है, उसके लिये संसारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मलोकमें ऐसे करोड़ों श्रुति निवास करते हैं, जो इस लोकमें सदा सत्यवादी, जितेन्द्रिय और ऊर्ध्वरेता (नीचक ब्रह्मचारी) थे। राजन्! यदि ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय तो वह सम्पूर्ण पापोंको भस्म कर डालता है। ब्राह्मणको तो विशेषरूपसे ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये; क्योंकि ब्राह्मण अनिक्का श्वरूप समझा जाता है। तपस्वी ब्राह्मणोंमें यह बात प्रयत्न देली जाती है। ब्रह्मचारीके कुपित होनेपर इन्द्र भी डरते हैं। ब्रह्मचर्यका यह फल यहाँ श्रुतियोंमें पूर्णरूपसे दृष्टिगोचर होता है। अब तुम माता-पिता और गुरुजनोका पूजन करनेसे जो धर्म होता है, उसके विषयमें सुनो। जो पिता, माता, श्रेष्ठ भ्राता, गुरु और आचार्यकी सेवा करता है, कभी उनके दीय नहीं देखता, उसको स्वर्ग-लोकमें सम्मानित स्थान प्राप्त होता है। उसे कभी नरकका दर्शन नहीं करना पड़ता।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! अब मैं गोदानकी उत्तम विधिका यथार्थरूपसे ध्वषण करना चाहता हूँ, जिससे सनातन लोकोंको प्राप्ति होती है।

भीष्मजीने कहा—वेदा! गोदानसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि न्यायपूर्वक प्राप्त हुई गौका दान किया जाय तो वह समस्त कुलका तत्काल उद्धार कर देती है। इसलिये तुम आदिकालसे प्रचलित हुई गोदानकी विधिका ध्वषण करो। प्राचीनकालको याद है, जब महाराज माण्डवताके पास बहुत-सी गौएँ दानके लिये लायी गयीं तो उन्होंने 'कंसो गौ दान करे' इस संदेहमें पड़कर बहुश्रुतिजीसे तुम्हारी हो तरह प्रश्न किया। तब बहुश्रुतिजीने इस प्रकार उत्तर दिया—'गोदान करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह दत्तका पालन करे और ब्राह्मणको मुझाकर उसका अच्छी तरह सत्कार करके कहें कि 'कंस प्रातःकाल आपको गौ दान करेगा।' तत्पश्चात् वह गोदानके लिये स्नान रंगको (रोहिणी) गौ मंगावे और 'समृद्धे बहुलं' इस प्रकार बहूकर गौओंको सम्बोधित करे। फिर गौओंके बीचमें जाकर निम्ना-

द्विज धृतिका (जिसका सारांग यहाँ दिया जाता है) उच्चारण करे—'गौ मेरी माता और प्रतिष्ठा है, बंस मेरा पिता है, वे दोनों मुझे इहलोकमें तथा स्वर्गलोकमें सुख दें।' इस प्रकार बहूकर गौओंकी शरण से और उन्हींके साथ रात बिताकर सबेरे गोदान-कालमें ही फिर तीन भंग करे। इस प्रकार गौओंके साथ एक रात बहूकर उनके समान धनका पालन करते हुए उन्हींके साथ एकात्मभावकी प्राप्ति होनेसे मनुष्य तत्काल सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा पा जाता है। गोदान करनेके पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करे—'गौएँ उत्साहसम्पन्न, बल और बुद्धिसे युक्त, अमरत्व प्रदान करनेवाले धन-सम्बन्धी हविष्यकी शैवभूता, जगत्की प्रतिष्ठा, पुण्यीको प्रकट करनेवाली, संसारके अनारि प्रदाहको प्रवृत्त करनेवाली और प्रजापतिकी पुत्री हैं। सूर्य और चन्द्रमाके भ्रातृ प्रकट हुईं वे गौएँ हमारे पापोंका नाश करें, हमें उत्तम लोककी प्राप्तिमें सहय्यता दें, दातकी भाँति शरण प्रदान करें और जिन इच्छाओंको हमने अपने मूँहसे नहीं प्रकट किया है, वे भी उनकी कृपासे पूर्ण हो जायें। गौओ! जो लोग (तुम्हारे पञ्चगव्य आदिका सेवन करते हुए) तुम्हारी आराधनामें लगे रहते हैं, उनके कर्मोंसे प्रसन्न होकर तुम उन्हें क्षय आदि रोगोंसे छुटकारा दिलाती हो और (ज्ञानकी प्राप्ति कराकर) देह-जन्मसे भी मुक्त कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा किया करते हैं, उनके कल्याणके लिये तुम सरस्वती नदीकी भाँति सदा प्रयत्नशील रहती हो। गोमाताओ! हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और हमें समस्त पुण्योंके द्वारा प्राप्त होनेवाली अभीष्ट भक्ति प्रदान करो।' इसके बाद दाता निम्नाङ्कित आद्ये श्लोकका उच्चारण करे—'या वे पुण्यं सोऽहमर्षेव भावो यूपमान् दत्त्वा चाहामप्रदाता।—'गौओ! तुम्हारा जो स्वयं है, यही मेरा भी है—तुममें और हममें कोई अन्तर नहीं है; अतः आज तुम्हें दानमें देकर हमने अपने आपको ही दान किया है।' दाताके ऐसा बहूनेपर दान लेनेवाला ब्राह्मण शेष आद्ये श्लोकका उच्चारण करे—'मनश्च्युता मन एवोपपन्नाः संघृष्टाश्च सोम्यरूपोपस्थाः।—'गौओ! तुम शान्त और प्रवचनरूप धारण करनेवाली हो। अब तुम्हारे ऊपर दाताका ममत्व (अधिकार) नहीं रहा; अब तुम मेरे अधिकारमें आ गयी हो, अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और दाताको भी प्रसन्न करो।'

'जो गौके त्रिपिण्डरूपमें उसका मृत्यु, ब्रह्म अथवा सुवर्ण दान करता है, उसको भी गोदाता ही कहना चाहिये। इस रूपमें दो जानेवाली गौओंका नाम क्या: ऊर्ध्वविषा, भवितव्या और वैष्णवी है। संश्रुत्ये सम्यक् इन्हीं नामोंका उच्चारण करना चाहिये। इनके दाता

क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिये—गौका मूल्य देनेवाला छत्तीस हजार वर्षोत्तक, गौकी जगह वस्त्र दान करनेवाला आठ हजार वर्षोत्तक तथा गौके स्थानमें सुवर्ण देनेवाला बीस हजार वर्षोत्तक दिव्यलोकमें चुब भोगता है। इस तरह गौओंके निष्क्रियदानका क्रमशः फल बताया गया, इसे ध्यानमें रखना चाहिये। साक्षात् गौका दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घरकी ओर जाने लगता है, उस समय उसके आठ पग जाते-जाते ही दाताको अपने दानका फल मिल जाता है। साक्षात् गौको दान करनेवाला शीलवान् और उसका मूल्य देनेवाला निर्भय होता है तथा गौकी जगह इच्छानुसार सुवर्ण दान करनेवाला मनुष्य कभी दुःखमें नहीं पड़ता। जो प्रातःकाल उठकर नैतिक नियमोंका अनुष्ठान करनेवाला और महाभारतका विद्वान् है, वह तथा ऊपर बताये हुए गोदाता पुरुष चन्द्रमाके समान प्रकाशमान वैष्णव लोकमें गमन करते हैं।

“गौ दान करनेके पश्चात् मनुष्यको तीन राततक गोब्रतका पालन करना चाहिये और एक रात गौओंके साथ रहना चाहिये। कामाण्डनीसे लेकर तीन राततक गोबर, गोडुग्ध अथवा गोरसनात्रका आहार करना चाहिये। जो पुरुष एक बैल दान करता है, वह देवव्रती (सूर्यमण्डलका भेदन करके जानेवाला ब्रह्मचारी) होता है। जो एक गाय और एक बैल दान करता है, उसे वेदोंकी प्राप्ति होती है तथा जो विधिपूर्वक गौओंका दान करता है, उसे उत्तम लोक मिलते हैं; किंतु जो विधिको नहीं जानता, वह उत्तम फलसे वञ्चित रहता है। जो मनुष्य अपना शिष्य नहीं है, जो व्रतका पालन नहीं करता, जिसमें श्रद्धाका अभाव है तथा जिसकी बुद्धि कुटिल है, उसे इस गोदानकी विधिका उपदेश न दे; क्योंकि यह सबसे गोपनीय धर्म है। इसका यत्र-तत्र सर्वत्र प्रचार नहीं करना

चाहिये। संसारमें बहुत-से अश्रद्धालु, झुठ तथा राक्षस-स्वभावके मनुष्य हैं और कितने ही नास्तिकताका आश्रय लिये हुए हैं; उनको यदि इस धर्मका उपदेश दिया जाय तो अनिष्ट होता है।”

राजन्! बृहस्पतिजीके इस उपदेशको सुनकर जिन पुण्यशील राजाओंने गोदान किया और उसके प्रभावसे वे उत्तम लोकोंको प्राप्त हुए, उनका नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चुनो—उशीनर, विश्वगर्भ, नृग, भगीरथ, यौवनाश्व (मान्धाता), नुचुकुन्द, भूरिद्युम्न, नैषध, सोमक, पुरूरवा, चक्रवर्ती भरत और राजा दिलीप—इन सबने गोदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया है। अतः कुन्तीनन्दन! तुम भी बृहस्पतिजीके उपदेशको धारण करो और कौरव-राज्यपर अधिकार पाकर उत्तम ब्राह्मणोंको प्रसन्नतापूर्वक पवित्र गौएँ दान करो।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! भीष्मजीने जब इस प्रकार विधिवत् गोदान करनेकी आज्ञा दी तो धर्मराज युधिष्ठिरने बैसा ही किया और बृहस्पतिजीने मान्धाताके लिये जिस धर्मका उपदेश किया था, उसको भी भलोभाँति स्मरण रक्खा। वे गोबरके साथ जीके कणका आहार करते हुए इन्द्रियसंयमपूर्वक पृथ्वीपर शयन करने लगे। उनके मस्तकपर जटाएँ बड़ गयीं। उन दिनों राजाओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर साक्षात् धर्मके समान देवीप्यमान हो रहे थे। वे अपने मनको एकाग्र रखकर देवताओंकी भाँति गौओंकी स्तुति करते और देवबुद्धिसे ही सदा उनको प्रणाम किया करते थे। तबसे उन्होंने अपने रथमें बैलोंको कभी नहीं जोता—बैलगाड़ीकी सवारी ही छोड़ दी। धोड़ोसे जुते हुए रथकी सवारीसे ही वे इधर-उधरकी यात्रा करते थे।

गोदानके फल, कपिला गौकी उत्पत्ति और गोमाहात्म्यके विषयमें वसिष्ठ-सौदास-संवादका वर्णन

युधिष्ठिरने कहा—भारत! आप गोदानके उत्तम गुणोंका फिरसे वर्णन कीजिये, आपके मुँहसे इस अनूतमय उपदेशको सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती।

भीष्मजीने कहा—बेटा! वास्तव्य गुणसे युक्त एवं उत्तम लक्षणोंवाली जबान गायको वस्त्र जोड़ाकर ब्राह्मणको दान करनेसे मनुष्य सन्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और उसे अनुर्य नामक अथकारमय लोकों (नरकों) में नहीं जाना पड़ता। जिसका घात खाना और पानी पीना समाप्त

हो चुका हो, जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इन्द्रियाँ काम न दे सकती हों, अर्थात् जो बूढ़ी और रोगिणी होनेके कारण जौर्ण-शौर्ण शरीरवाली हो गयी हों, ऐसी गौका दान करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थ कष्टमें डालता है और स्वयं भी धीर नरकमें पड़ता है। क्रोध करनेवाली, मरकहो, रुग्ण, दुबली-भतली तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी गौका दान करना कदापि उचित नहीं है। हृष्ट-पुष्ट, सीधी-मुलसणा, जबान एवं उत्तम गन्धवाली गौकी सभी

लोग प्रशंसा करते हैं। जैसे नदियोंमें गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही गौओंमें कपिला गौ उत्तम मानी गयी है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! किसी भी रंगकी गौका दान किया जाय, गोदान तो एक-सा ही होगा। फिर सत्युद्योगने कपिला गौकी ही अधिक प्रशंसा क्यों की है ? मैं कपिलाके महान् प्रभावकी विशेषरूपसे सुचना चाहता हूँ।

भोष्मजीने कहा—बेटा ! मैंने बड़े-बूढ़ोंके मुंहसे रोहिणी (कपिला) गौकी उत्पत्तिका जो प्राचीन वृत्तान्त सुना है, वह सब सुनते बतला रहा हूँ। सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने दस प्रजापतियोंको आत्मा दी कि 'तुम प्रजाको उत्पन्न करो।' किन्तु दस प्रजापतिने प्रजाओंकी मलाईके लिये सबसे पहले उनकी आजीविकाका उपाय निर्धारित किया। उसके बाद उन्होंने प्रजाको उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविकाके लिये कोलाहल करने लगे। जैसे भूले-ध्यासे बालक अपने माँ-बापके पास दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविकादाता दसके पास गयी। प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार करके प्रजापतिने उनकी रक्षाके लिये अमृतका पान किया। अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गये तो उनके मुखसे सुरभि (मन्त्रोद्धार) सुगन्ध निकलने लगी। उस सुरभि गन्धसे सुरभि (गौ) प्रकट हुई, जिसे प्रजापतिने अपने मुखसे उत्पन्न होनेवाली पुत्रीके रूपमें देखा। सुरभिने भी बहुत-सी कपिला गौएँ उत्पन्न कीं, जो प्रजाकी माताके समान थीं और जिनका रंग कुंदनकी भाँति दमक रहा था। वे सब गौएँ प्रजाकी आजीविका थीं। जैसे नदियोंकी सहरोसे फेन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चारों ओर दूधकी धारा बहाती हुई अमृतके समान धर्णवाली उन गौओंके दूधसे फेन उठने लगा। एक दिनकी बात है, भगवान् शंकर पृथ्वीपर लड़े थे, उसी समय सुरभिने एक बछड़ेके मुंहसे फेन निकलकर उनके मस्तकपर गिर पड़ा। इससे वे कुपित हो उठे और अपना सत्ताटानिकी ज्वालासे मानो रोहिणी गौको भस्म कर डालेंगे, इस तरह उसकी ओर देखने लगे। दृष्टका वह भयंकर तेज जिन-जिन कपिलाओंपर पड़ा उनके रंग नाना प्रकारके हो गये, किन्तु जो वहाँसे भागकर चन्द्रमाकी शरणमें चली गयीं, उनका रंग नहीं बदला। वे जैसी उत्पन्न हुई थीं, वैसी ही रह गयीं।

तब प्रजापतिने महादेवजीको कुपित देखकर कहा— 'प्रभो ! आपके ऊपर अमृतका छोटा पड़ा है। गौओंका दूध बछड़ोंके पीनेसे जूँटा नहीं होता। जैसे चन्द्रमा अमृतका संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार ये रोहिणी गौएँ भी अमृतसे उत्पन्न दूध देती हैं। जैसे थायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र तथा देवताओंका पीया हुआ अमृत—इनमें उच्छिष्टका दोष नहीं होता, वैसे ही बछड़ोंको पिलाती हुई गौ भी दूधित नहीं मानी जाती। (तात्पर्य यह कि दूध पीते समय बछड़ेके मुंहसे गिरा हुआ भाग अमृत नहीं माना जाता।) ये गौएँ अपने दूध और पीसे सम्पूर्ण जगत्का पालन करेंगी। सब लोग इनके अमृतमय दूधको पीना चाहते हैं।'

ऐसा कहकर प्रजापति दसने महादेवजीको बहुत-सी गौएँ और एक बंल भेंट किये तथा इसी उपायसे उनके वित्तकी शान्त किया। महादेवजीने भी प्रसन्न होकर उस दूधभरकी अपना बाहन बनाया और उसीके चिह्नसे अपनी ध्वजा सुशोभित की। इसीसे उनका नाम 'दूधभध्वज' प्रसिद्ध हुआ। तदनन्तर, देवताओंने महादेवजीको पशुओंका राजा (पशुपति) बना दिया और गौओंके बीचमें उनका नाम 'दूधमातृ' रल दिया। इस प्रकार कपिला गौएँ अत्यन्त तेजस्विनी और शाल्व धर्णवाली हैं। इसीसे उनको बानमें सब गौओंसे प्रथम स्थान दिया गया है। गौएँ संसारकी सर्व-श्रेष्ठ वस्तु हैं। वे जगत्को जीवन देनेवाली हैं। भगवान् शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्पन्न हुई हैं तथा शान्त, पवित्र, समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाली और जगत्को प्राणदान देनेवाली हैं; अतः गोदान करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका दाता माना जाता है। अपवित्र मनुष्य भी यदि गौओंकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली इस उत्तम कृपाका पाठ करता है तो कतिपयके बोधसे मुक्त हो जाता है और उसे पुत्र, सभ्य, धन तथा ऋण आदिकी सदा प्राप्ति होती है। राजन् ! गोदान करनेवालेकी हृद्य, कथ्य, तर्पण और शान्ति-कर्मका फल तथा वाटन, भूख एवं बातकों और बूढ़ोंका संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार वे सब गोदानके गुण हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! बसिष्ठजीने मुनिकर राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयोंने जो गोदानके समान रंगवाले बंल तथा


भोगमजी कहते हैं—धर्मराज ! इक्ष्वाकुवंशमें एक सीदास नामके राजा थे। एक बार उन्होंने ब्रह्माजीके पुत्र महर्षि वसिष्ठको प्रणाम करके पूछा—‘भगवन् ! तीनों लोकोंमें ऐसी पवित्र वस्तु कौन है, जिसका नाम लेनेमात्रसे मनुष्यको सदा उत्तम पुण्यकी प्राप्ति हो सके?’ तब महर्षि वसिष्ठने गौओंको नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरम्भ



किया—‘राजन् ! गौओंके शरीरसे अनेकों प्रकारकी मनोरम सुगन्ध निकलती रहती है। बहुतेरी गौएँ गुग्गुलुके समान गन्धवाली होती हैं। गौएँ प्राणियोंका आधार तथा कल्याणकी निधि हैं। भूत और भविष्य गौओंके ही हाथमें हैं। वे ही सदा रहनेवाली पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हैं। गौओंकी सेवामें जो कुछ दिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। अन्न गौओंसे उत्पन्न होता है, देवताओंको उत्तम हविष्य (घृत) गौएँ देती हैं तथा स्वाहाकार (देवयज्ञ) और वषट्कार (इन्द्रयाग) भी सदा गौओंपर ही अबलम्बित हैं। गौएँ ही यज्ञका फल देनेवाली हैं, उन्हींमें यज्ञोंकी प्रतिष्ठा है। ऋषियोंको प्रातःकाल और सायंकालमें होमके समय गौएँ ही हवनके योग्य घृत आदि पदार्थ देती हैं। जो लोग दूध देनेवाली गौ दान करते हैं, वे अपने समस्त संकटों और पापोंके पार हो जाते हैं। जिसके पास दस गौएँ हों, वह एक गौ दान करे, जो सौ गायें रखता हो, वह दस गायें दान करे और

जिसके पास हजार गौएँ मौजूद हों, वह सौ गौएँ दान करे तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है। जो सौ गौओंका स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, जो हजार गौएँ रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता—ये तीनों मनुष्य अर्घ्य (सम्मान) पानेके अधिकारी नहीं हैं। जो उत्तम लक्षणोंसे युक्त कपिला गौको वस्त्र ओढ़ाकर वछड़ेसहित दान करता है तथा उसके साथ दूध दुहनेके लिये एक कांसीका पात्र भी देता है, वह इहलोक-परलोक दोनोंको जीत लेता है। प्रातःकाल और सायंकालमें प्रतिदिन गौओंको प्रणाम करना चाहिये, इससे मनुष्यके शरीर और बलकी पुष्टि होती है। गोमूत्र और गोबर देखकर कभी घृणा न करे। गौओंके गुणोंका कीर्तन करे। कभी उनका अपमान न करे। यदि बुरे स्वप्न दिखायी दें तो गोमाताका नाम ले। प्रतिदिन शरीरमें गोबर लगाकर स्नान करे। सूखे हुए गोबरपर बँठे। उसपर थूक न फेंके, मल-मूत्र न त्यागे। गौओंके तिरस्कारसे बचता रहे। अग्निमें गायके घृतका हवन करे, उसीसे स्वस्तिवाचन करावे, गो-घृतका दान और स्वयं भी उसका भक्षण करे तो गौओंकी वृद्धि होती है। जो मनुष्य सब प्रकारके रत्नोंसे युक्त तिलकी धेनुको ‘गोमा अग्ने विर्मा अश्वी’ आदि गोमती मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसे ब्राह्मणको दान करता है, उसे अपने पाप-पुण्यके लिये शोक नहीं करना पड़ता। रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना ही बड़ा भय क्यों न उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य निम्नाङ्कित श्लोकार्थोंका कीर्तन करता है तो वह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता है—‘जैसे नदियाँ समुद्रके पास जाती हैं, उसी तरह सोनेसे मढ़े हुए सींगोंवाली दुग्धवती सुरभी और सौरभेयी गौएँ मेरे निकट आवें। मैं सदा गौओंका दर्शन करूँ और गौएँ मुझपर कृपादृष्टि करें। गौएँ मेरी हैं और मैं गौओंका हूँ; जहाँ गौएँ रहें, वहीं मैं भी रहूँ।’

प्राचीनकालमें गौओंने श्रेष्ठता प्राप्त करनेके लिये एक लाख वर्षोंतक कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि ‘इस जगत्में जितनी दक्षिणा देनेयोग्य वस्तुएँ हैं, उन सबमें हम उत्तम समझी जावें। हमको कोई दोष न लगे। मनुष्य हमारे गोबरसे स्नान करनेपर सदा ही पवित्र हों। देवता और मानव पवित्रताके लिये हमेशा हमारे गोबरका उपयोग करें। समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबरसे पवित्र हो जायें और हमारा दान करनेवाले मनुष्योंको हमारा ही उत्तम लोक (गोलोक) प्राप्त हो।’ इस प्रकारका संकल्प लेकर जब गौओंने अपनी तपस्या पूर्ण की तो



उन्हें घरदान दिया 'गौओ। तुम्हारी समस्त कामनाएँ पूर्ण हों और तुम जगत्के जीवोंका उद्धार करती रहो।'

इस प्रकार अपनी कामनाएँ सिद्ध हो जानेपर गौएँ तपस्यासे निवृत्त हुईं और उसके परचात् जगत्का कल्याण करने लगीं। इसीलिये वे महान् सौभाग्यशालिनी गौएँ परम पवित्र मानी जाती हैं। वे समस्त प्राणियोंसे श्रेष्ठ एवं वन्दनीय हैं। जो मनुष्य दूध देनेवाली सुलसाणा कपिला गौको यत्न ओढ़ाकर कपिल रंगके बछड़ेसहित दान करता है, वह ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है। सदा गोदानमें अनुराग रखनेवाला पुरुष सूर्यके समान देवीप्यमान विमानमें बैठकर मेघ-मण्डलको भेदता हुआ स्वर्गमें जाकर मुशोभित होता है। गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षातिक वह स्वर्ग-लोकमें सत्कारपूर्वक रहता है। फिर पुण्य क्षीण

होनेपर जब स्वर्गसे नीचे उतरता है तो इस मनुष्यलोकमें आकर सम्पन्न घरमें जन्म लेता है।

मनुष्यको चाहिये कि सबेरे और सायंकाल आचमन करके इन प्रकार जप करे—'घी और दूध देनेवाली, घीकी उत्पत्तिका आधार, घीको प्रकट करनेवाली, घीकी नदी तथा घीकी संवररूप गौएँ मेरे घरमें सदा निवास करें। मेरे अंगों-पीठे और चारों ओर गौएँ मौजूद रहें, मैं गौओंके बीचमें ही निवास करूँ।' इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेसे मनुष्यके दिनभरके पाप नष्ट हो जाते हैं। गोदान करनेवाला मनुष्य अपने माता और पिताकी दस पीढ़ियोंको पवित्र करके उन्हें पुण्यमय लोकमें भेजता है। जो गायके बराबर तिसको गाय बनाकर उसका दान करता है तथा जो जसका दान करता है, उसे यमलोकमें कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती। गौ सबसे अधिक पवित्र, जगत्की प्रतिष्ठा और देवताओंकी माता है, उसका स्पर्श और उसकी प्रदक्षिणा करे तथा उत्तम समय देकर सुपात्र ब्राह्मणको उसका दान करे। जो बड़े-बड़े सौगाँवाली कपिला घेनुको बछड़े, काँसीकी दोहनी तथा यत्नसहित दान करता है, वह मनुष्य यमराजकी दुर्गम समा में निर्भय होकर प्रवेश करता है। गोदानसे बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है और गोदानके फलसे श्रेष्ठ अन्य कोई फल नहीं है। संसारमें गौसे बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है। जिसने समस्त घराघर जगत्को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्यकी माता गौको मैं अस्तक मुक्ताकर प्रणाम करता हूँ। राजन्! यह मैंने तुमसे गौओंके गुणोंका दिग्दर्शनमात्र कराया है। गौओंके दानसे बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई सत्कार भी नहीं है।

भीष्मजी कहते हैं—महर्षि वसिष्ठके ये वचन सुनकर भूमिदान करनेवाले महात्मा राजा सीदासने उसपर विचार किया और उसे सर्वथा उत्तम जानकर ब्राह्मणोंकी बहूत-भौ गौएँ दान दीं, इससे उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हुई।

व्यासजीका शुकदेवसे गोदानकी महिमाका वर्णन तथा भीष्मजीका गी और लक्ष्मीका संवाद सुनाना

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! संसारमें जो वस्तु पवित्रतामें भी पवित्र, उत्तम तथा परमपावन हो, उसका वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—बेटा! गायें महान् अर्चना साधन,

परमपवित्र और मनुष्योंकी तारनेवाली हैं। ये अपने घी और दूधसे अन्नके जीवनरत्न रसा करती हैं। गौओंसे अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ये तीनों लोकोंमें पवित्र, पुण्यावस्था तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। गौएँ देवताओंसे भी ऊपरके लोकोंमें निवास

हरती हैं। जो इनका दान करते हैं वे मनीषी पुरुष आत्मोद्धार हरके स्वर्गमें चले जाते हैं। मान्धाता, ययाति और नहुष सदा लाखों गौओंका दान किया करते थे, इससे उन्हें ऐसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हुई जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ हैं। इस विषयमें मैं तुम्हें एक पुराना वृत्तान्त सुना रहा हूँ। एक समयकी बात है, परमबुद्धिमान् शुकदेवजीने नित्यकर्मका अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त होकर लोकके भूत और भविष्यको देखनेवाले अपने पिता ऋषिश्रेष्ठ व्यासजीको प्रणाम करके पूछा—'पिताजी! विद्वान् पुरुष किस कर्मका अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं? पवित्रोंमें भी पवित्र वस्तु क्या है? इसे बतानेकी कृपा कीजिये।'

व्यासजीने कहा—बेटा! गौएँ सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा और परम-आश्रय हैं। वे पुण्यस्वरूप, पवित्र और पावन हैं, हव्य और कव्य प्रदान करनेवाली हैं और शुभ, पुण्य, पवित्र, सौभाग्यवती तथा दिव्य विग्रहसे सम्पन्न हैं। गौएँ दिव्य एवं महान् तेज हैं, उनके दानकी शास्त्रोंमें प्रशंसा की गयी है। जो सत्पुरुष मात्सर्यका त्याग करके गौओंका दान करते हैं, वे पवित्र गोलोकमें जाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा पुरुष ही सुख-पूर्वक निवास करते हैं। गोलोकवासी शोक और क्रोधसे रहित तथा पूर्णकाम होते हैं। वे विचित्र एवं रमणीय विमानोंमें बैठकर यथेष्ट विहार करते हुए आनन्दका अनुभव करते हैं। जो पुरुष सब प्रकार गौओंका अनुसरण और सेवा करता है, उसपर प्रसन्न होकर गौएँ अत्यन्त दुर्लभ वरदान देती हैं। गौओंके साथ मनसे भी द्रोह न करे, उन्हें सदा सुख पहुँचावे तथा यथोचित सत्कार और प्रणामके द्वारा उनका पूजन करता रहे। गौओंके गोबरसे निकाले हुए जौकी लप्तीका एक मासतक भक्षण करनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या-जैसे पापोंसे भी छूटकारा पा जाता है। जब दैत्योंने देवताओंको पराजित कर दिया तो उन्होंने इसी प्रायश्चित्तका अनुष्ठान किया, इससे उन्हें पुनः देवत्वकी प्राप्ति हुई तथा वे महाबलवान् और महासिद्ध हो गये। गौएँ परमपावन, पवित्र और पुण्य-स्वरूपा हैं, उन्हें ब्राह्मणोंको दान करनेसे मनुष्य स्वर्गका सुख भोगता है। पवित्र जलसे आचमन करके पवित्र होकर गौओंके बीचमें गोमतीमन्त्र (गोमाँ अग्ने विमाँ अश्वी) का जप करनेसे मनुष्य अत्यन्त शुद्ध एवं निर्मल (पापमुक्त) हो जाता है। विद्या और वेदव्रतमें निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोंको चाहिये कि वे अग्नि, गौ और ब्राह्मणोंके बीच अपने शिष्योंको यज्ञतुल्य गोमतीमन्त्रकी शिक्षा दें। जो तीन राततक उपवास करके गोमतीमन्त्रका जप करता है, उसे गौओंका वरदान प्राप्त होता है। पुत्रकी इच्छावालेको पुत्र, धन चाहनेवालेको धन और पतिकी इच्छा रखनेवाली स्त्रीको पति मिलता है।

इस प्रकार गौएँ मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करती हैं। वे यज्ञका प्रधान अङ्ग हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है।

अपने महात्मा पिताके इस प्रकार कहनेपर महातेजस्वी शुकदेवजी प्रतिदिन गौकी पूजा करने लगे; इसलिये युधिष्ठिर! तुम भी गौओंकी पूजा करो।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! मैंने सुना है कि गौके गोबरमें लक्ष्मीका वास है सो इस विषयका आप स्पष्ट वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—राजन्! इस विषयमें जानकार लोग गौ और लक्ष्मीके संवादरूप प्राचिन इतिहासका वर्णन करते हैं। एक समयकी बात है, लक्ष्मीने मनोहर रूप धारण करके गौओंके झुंडमें प्रवेश किया, उनके सुन्दर रूपको देखकर गौओंने विस्मित होकर पूछा—'देवि! तुम कौन हो? और कहाँसे आयी हो? तुम पृथ्वीकी अनुपम सुन्दरी जान पड़ती हो। हमलोग तुम्हारा रूप-वैभव देखकर अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ गयी हैं, इसीलिये तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। सुन्दरी! सच-सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ जाओगी?'

लक्ष्मीने कहा—गौओ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं इस



जगत्में लक्ष्मीके नामसे प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत् मेरी कामना करता है। मैंने दैत्योंको छोड़ दिया, इससे वे सदाके लिये नष्ट

हो गये हैं और मेरे ही आश्रयमें रहनेके कारण इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनन्द भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियोंकी मेरी ही शरणमें आनेसे सिद्धि मिलती है। जिनके शरीरमें मैं प्रवेश नहीं करती, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग होनेपर ही सुख दे सकते हैं। सुखदायिनी गौओ ! ऐसा ही मेरा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीरमें सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिये स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुमलोग मेरा आश्रय पाकर थीसम्पन्न हो जाओ।

गौओंने कहा—देवि ! तुम बड़ी चञ्चला हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहतीं। इसके सिवा तुम्हारा बहुतेके साथ एक-सा सम्बन्ध है, इसलिये हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, हमारा शरीर तो यों ही हृष्ट-सुष्ट और सुन्दर है, हमें तुमसे क्या काम ? तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। तुमने हमसे बातचीत की, इतनेहीसे हम अपनेको कृतार्थ मानती हैं।

लक्ष्मीने कहा—गौओ ! तुम यह क्या कहती हो, मैं दुर्लभ और सती हूँ फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करतीं, इसका क्या कारण है ? आज मुझे मालूम हुआ कि 'बिना बुलाये किसीके पास जानेसे अनादर होता है', यह कहावत अक्षरशः सत्य है। उत्तम व्रतका पालन करनेवाली प्रेम्मी ! देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर बिलोकीमें कोई भी मेरा अपमान नहीं करता।

गौओंने कहा—देवि ! हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करतीं, केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं और वह भी इसलिये कि तुम्हारा चित्त चञ्चल है, तुम कहीं भी जमकर नहीं रहतीं। अब बहुत बातचीतसे कोई साम नहीं है, तुम जहाँ जाना चाहो चली जाओ। हम सब सोगोंका शरीर यों ही हृष्ट-सुष्ट एवं प्राकृतिक गोभासे युक्त है, फिर हम तुम्हें संभर क्या करेंगे ?

लक्ष्मीने कहा—गौओ ! तुम दूसरोंको आदर देनेवाली हो, यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत्में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिये मुझपर कृपा करो। तुम महान् सौभाग्य-शालिनी और सबको शरण देनेवाली हो, अतः मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ, मुझमें कोई दोष नहीं है, मैं तुमलोगोंकी सेविका हूँ, यह जानकर मेरी रक्षा करो—मुझे अपनाओ। मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ, तुमलोग सदा सबकी कल्याण करने-वाली, पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे आना दो, मैं तुम्हारे शरीरके किञ्चि भागमें निवास करूँ ?

गौओंने कहा—यशस्विनी ! हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिये। अर्थात्, तुम हमारे गोबर और मूत्रमें निवास करो; क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएँ परम पवित्र हैं।

लक्ष्मीने कहा—प्रथम भाग ! जो तुमलोगोंने मुझपर अनुग्रह किया। मैं ऐसा ही करूँगी। सुखदायिनी गौओ ! तुमने मेरा मान रक्ष लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो।

मुग्धिष्ठिर ! इस प्रकार गौओंके साथ प्रीतिता करके लक्ष्मी उनके देखते-देखते वृहति अन्तर्धान हो गयीं। इस प्रकार मैंने तुमसे गोबरके माहात्म्यका वर्णन किया है, अब फिर गौओंका ही माहात्म्य सुनो।

ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गौओंका उत्कर्ष बताना तथा सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ और परशुरामका संवाद

भीष्मजी कहते हैं—मुग्धिष्ठिर ! जो मनुष्य सदा यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन और गोदान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन अन्न-दान और यज्ञ करनेका फल मिलता है। वही और धीके बिना यज्ञ नहीं हो सकता। जहाँसे यज्ञ सम्पादित होता है, इसलिये गौओंको यज्ञका मूल कहते हैं। सब प्रकारके दानोंमें गोदान ही उत्तम माना गया है। गौएँ श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन बतायी गयी हैं। मनुष्यको अपने शरीरकी पुष्टि तथा सब प्रकारके विघ्नोंकी शान्तिके लिये भी गौओंका सेवन करना चाहिये। इनका दूध, दही और घी सब पापोंसे मुक्त करनेवाला है। गौएँ इस लोक और परलोकमें भी महान्

तेजोव्यपत्ति गयी हैं, उनसे बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। इस विषयमें ब्रह्माजी और इन्द्रके संवादका प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। पूर्वकालमें देवोंके परास्त होनेपर जब इन्द्र तीनों लोकोंके अधीश्वर हुए तो समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्नताके साथ सत्य और धर्ममें तत्पर रहने लगी। तद-नन्तर एक दिन ऋषि, गन्धर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, असुर, मुषण (पक्षी) और प्रजापतिगण ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे। इसी समय देवराज इन्द्रने ब्रह्माजीको प्रणाम करके पूछा—'भगवन् ! गोलोक समस्त देवताओं और लोकवासिनीके ऊपर क्यों है ? गौओंने ऐसा बौन-ना तप

करती हैं। जो इनका दान करते हैं वे मनीषी पुरुष आत्मोद्धार करके स्वर्गमें चले जाते हैं। माण्डाता, ययाति और नहुष सदा लाखों गौओंका दान किया करते थे, इससे उन्हें ऐसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हुई जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ हैं। इस विषयमें मैं तुम्हें एक पुराना वृत्तान्त सुना रहा हूँ। एक समयकी बात है, परमबुद्धिमान् शुकदेवजीने नित्यकर्मका अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त होकर लोकके भूत और भविष्यको देखनेवाले अपने पिता ऋषिश्रेष्ठ व्यासजीको प्रणाम करके पूछा—‘पिताजी! विद्वान् पुरुष किस कर्मका अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं? पवित्रोंमें भी पवित्र वस्तु क्या है? इसे बतानेकी कृपा कीजिये।’

व्यासजीने कहा—बेटा! गौएँ सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा और परम आश्रय हैं। वे पुण्यस्वरूप, पवित्र और पावन हैं, हृद्य और कव्य प्रदान करनेवाली हैं और शुभ, पुण्य, पवित्र, सोमाग्यवती तथा दिव्य विग्रहसे सम्पन्न हैं। गौएँ दिव्य एवं महान् तेज हैं, उनके दानकी शास्त्रोंमें प्रशंसा की गयी है। जो सत्यपुरुष मात्सर्यका त्याग करके गौओंका दान करते हैं, वे पवित्र गोलोकमें जाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा पुरुष ही सुखपूर्वक निवास करते हैं। गोलोकवासी शोक और क्रोधसे रहित तथा पूर्णकाम होते हैं। वे विचित्र एवं रमणीय विमानोंमें बैठकर यथेष्ट विहार करते हुए आनन्दका अनुभव करते हैं। जो पुरुष सब प्रकार गौओंका अनुसरण और सेवा करता है, उसपर प्रसन्न होकर गौएँ अत्यन्त दुर्लभ वरदान देती हैं। गौओंके साथ मनसे भी द्रोह न करे, उन्हें सदा सुख पहुँचावे तथा यथोचित सत्कार और प्रणामके द्वारा उनका पूजन करता रहे। गौओंके गोवरसे निकाले हुए जौकी लप्सीका एक मासतक भक्षण करनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्याजैसे पापोंसे भी छुटकारा पा जाता है। जब दैत्योंने देवताओंको पराजित कर दिया तो उन्होंने इसी प्रायश्चित्तका अनुष्ठान किया, इससे उन्हें पुनः देवत्वकी प्राप्ति हुई तथा वे महाबलवान् और महासिद्ध हो गये। गौएँ परमपावन, पवित्र और पुण्यस्वरूपा हैं, उन्हें ब्राह्मणोंको दान करनेसे मनुष्य स्वर्गका सुख भोगता है। पवित्र जलसे आचमन करके पवित्र होकर गौओंके बीचमें गोमतीमन्त्र (गोर्मा अग्ने विर्मा अश्वी) का जप करनेसे मनुष्य अत्यन्त शुद्ध एवं निर्मल (पापमुक्त) हो जाता है। विद्या और वेदव्रतमें निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोंको चाहिये कि वे अग्नि, गौ और ब्राह्मणोंके बीच अपने शिष्योंको यज्ञतुल्य गोमतीमन्त्रकी शिक्षा दें। जो तीन राततक उपवास करके गोमतीमन्त्रका जप करता है, उसे गौओंका वरदान प्राप्त होता है। पुत्रकी इच्छावालेको पुत्र, धन चाहनेवालेको धन और पतिकी इच्छा रखनेवाली स्त्रीकी पति मिलता है।

इस प्रकार गौएँ मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करती हैं। वे यज्ञका प्रधान अङ्ग हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है।

अपने महात्मा पिताके इस प्रकार कहनेपर महातेजस्वी शुकदेवजी प्रतिदिन गौकी पूजा करने लगे; इसलिये युधिष्ठिर! तुम भी गौओंकी पूजा करो।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! मैंने सुना है कि गौके गोवरमें लक्ष्मीका वास है सो इस विषयका आप स्पष्ट वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—राजन्! इस विषयमें जानकार लोग गौ और लक्ष्मीके संवादरूप प्राचिन इतिहासका वर्णन करते हैं। एक समयकी बात है, लक्ष्मीने मनोहर रूप धारण करके गौओंके झुंडमें प्रवेश किया, उनके सुन्दर रूपको देखकर गौओंने विस्मित होकर पूछा—‘देवि! तुम कौन हो? और कहाँसे आयी हो? तुम पृथ्वीकी अनुपम सुन्दरी जान पड़ती हो। हमलोग तुम्हारा रूप-वैभव देखकर अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ गये हैं, इसीलिये तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। सुन्दरी! सच-सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ जाओगी?’

लक्ष्मीने कहा—गौओ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं इस



जगत्में लक्ष्मीके नामसे प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत् मेरी कामना करता है। मैंने दैत्योंको छोड़ दिया, इससे वे सदाके लिये नष्ट

हो गये हैं और मेरे ही आश्रयमें रहनेके कारण इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनन्द भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियोंको मेरी ही शरणमें आनेसे सिद्धि मिलती है। जिनके शरीरमें मैं प्रवेश नहीं करती, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग होनेपर ही सुख दे सकते हैं। सुखदायिनी गौओ! ऐसा ही मेरा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीरमें सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिये स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुमलोग मेरा आश्रय पाकर धीसम्पन्न हो जाओ।

गौओंने कहा—देवि! तुम बड़ी चञ्चलता हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहतीं। इसके सिवा तुम्हारा बहूतोंके साथ एक-सा सम्बन्ध है, इसलिये हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, हमारा शरीर तो यों ही हृष्ट-मुष्ट और सुन्दर है, हमें तुमसे क्या काम? तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। तुमने हमसे बातचीत की, इतनेहीसे हम अपनेको कृतार्थ मानती हैं।

लक्ष्मीने कहा—गौओ! तुम यह क्या कहती हो, मैं दुर्लभ और सती हूँ फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करतीं, इसका क्या कारण है? आज मुझे मालूम हुआ कि 'बिना बलाये किसको पास जानेसे अनादर होता है', यह कहावत अक्षरशः सत्य है। उत्तम व्रतका पालन करनेवाली धेनुओ! देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवाका सीमाय प्राप्त करते हैं। मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकमें कोई भी मेरा अपमान नहीं करता।

गौओंने कहा—देवि! हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करतीं, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं और वह भी इसलिये कि तुम्हारा चित्त चञ्चल है, तुम कहीं भी जमकर नहीं रहतीं। अब बहुत बातचीतसे कोई लाभ नहीं है, तुम जहाँ जाना चाहो चली जाओ। हम सब गौओंका शरीर यों ही हृष्ट-मुष्ट एवं प्राकृतिक शोभासे युक्त है, फिर हम तुम्हें संकर क्या करेंगी?

लक्ष्मीने कहा—गौओ! तुम इसरींकी आदर देनेवाली हो, यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत्में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिये मून्पर वृषा करो। तुम महान् सीमाय-शालिनी और सबको शरण देनेवाली हो, अतः मैं तुम्हारी शरणमें आयो हूँ, मुझमें कोई दोष नहीं है, मैं तुमलोगीकी सेविका हूँ, मष्ट जानकर मेरी रसा करो—मुझे अपनाओ। मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ, तुमलोग सदा सबकी कल्याण करनेवाली, पुण्यमयी, पवित्र और सीमायवती हो। मुझे आशा दो, मैं तुम्हारे शरीरके किस भागमें निवास करूँ?

गौओंने कहा—यशस्विनी! हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिये। अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूत्रमें निवास करो; क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएँ परम पवित्र हैं।

लक्ष्मीने कहा—धन्य भाग! ओ तुमलोगोंने मून्पर अनुग्रह किया। मैं ऐसा ही करूँगी। सुखदायिनी गौओ! तुमने मेरा मान रत किया, अतः तुम्हारा कल्याण हो।

सूर्यिष्ठिर! इस प्रकार गौओंके साथ प्रसिद्धा करके लक्ष्मी उनके देखते-देखते बहसि अन्तर्धान हो गयीं। इस प्रकार मैंने तुमसे गोबरके माहात्म्यका वर्णन किया है, अब फिर गौओंका ही माहात्म्य सुनो।

ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गौओंका उत्कर्ष बताना तथा सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ और परशुरामका संवाद

भोष्मजी कहते हैं—सूर्यिष्ठिर! जो मनुष्य सदा यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन और गोदान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन अन्न-दान और यज्ञ करनेका फल मिलता है। बही और घोड़े बिना यज्ञ नहीं हो सकता। जन्हींसे यज्ञ सम्पादित होता है, इसलिये गौओंको यज्ञका मूल कहते हैं। सब प्रकारके दानोंमें गोदान ही उत्तम माना गया है। गौएँ श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन बतायी गयी हैं। मनुष्यको अपने शरीरकी पुष्टि तथा सब प्रकारके विघ्नोंकी शान्तिके लिये भी गौओंका सेवन करना चाहिये। इनका दूध, बही और घी सब पापोंसे मुक्त करनेवाला है। गौएँ इस लोक और परलोकमें भी महान्

तेजोव्यपत्ति गयी हैं, जन्ते बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। इस विषयमें ब्रह्माजी और इन्द्रके संवादके प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। पूर्वकालमें देवोंके परात होनेपर जब इन्द्र तनों सोरोंके अधीन होकर तो समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्नताके साथ सत्य और धर्ममें तत्पर रहने लगी। तत्पर अन्तर एक दिन ऋषि, गन्धर्व, क्षिप्र, नाग, राक्षस, देवता, अमुद, सुपर्ण (पक्षी) और प्रजापतिगण ब्रह्माजीकी सेवामें उपासित थे। इसी समय देवराज इन्द्रने ब्रह्माजीकी प्रशंसा करके पूछा—'भगवन्! गोसोक समस्त देवताओं और लोकपालोंके ऊपर क्यों है? गौओंने ऐसा बौन-गा तप



किया है, जिससे वे रजोगुणसे रहित होकर देवताओंके भी ऊपर आनन्दपूर्वक निवास करती हैं; मैं इस बातको जानना चाहता हूँ।'

ब्रह्माजीने कहा—इन्द्र ! तुम सदा गौओंकी अवहेलना करते हो, इसीसे तुम इनका माहात्म्य नहीं जानते; अब मैं तुम्हें गौओंका उत्तम प्रभाव और माहात्म्य बता रहा हूँ, सुनो—
यज्ञका अङ्ग और साक्षात् यज्ञरूप बतलाया गया है। इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र (बंल) खेतीके काम आते और तरह-तरहके अन्न एवं वीज पैदा करते हैं, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते और हव्य-कव्यका भी काम चलता है। इन्हींसे दूध, बही और घी प्राप्त होते हैं। ये गौएँ बड़ी पवित्र होती हैं और बंल भूल-प्यासका कष्ट सहकर अनेकों प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गो-जाति अपने कर्मसे ऋषियों तथा प्रजाओंका पालन करती रहती है। उसके व्यवहारमें शठता या माया नहीं होती, वह सदा पवित्र कर्ममें लगी रहती है। इसीसे ये गौएँ हम सब लोगोंके ऊपर निवास करती हैं। इन्द्र ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने यह बात बताया कि गौएँ देवताओंके भी ऊपर क्यों निवास करती हैं। इसके सिवा गौएँ वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा प्रसन्न होनेपर वे दूसरोंको भी वरदान देती हैं। सुरभी गौएँ पुण्य कर्म करनेवाली, पवित्र और सुलक्षणा होती हैं।

वे जिस उद्देश्यसे पृथ्वीपर गयी हैं, उसको भी मैं बता रहा हूँ सुनो। पहले सत्ययुगमें जब देवता तीनों लोकोंपर राज्य करते थे, उस समय धर्मपरायणा दक्षकन्या सुरभी बड़े उत्साहके साथ घोर तपस्यामें प्रवृत्त हुई। कैलासके रमणीय शिखरपर, जहाँ देवता और गन्धर्व सदा विराजते रहते हैं, वह उत्तम योगका आश्रय ले ग्यारह हजार वर्षोंतक एक पैरसे खड़ी रही। तब मैंने उस तपस्विनी देवीके पास जाकर कहा—'कल्याणी ! तुम किसलिये यह घोर तपस्या कर रही हो, तुम्हारे इस तपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर माँगो, मैं देनेको तैयार हूँ।'

सुरभीने कहा—भगवन् ! मुझे वर लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे लिये तो सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझपर प्रसन्न हो गये।

ब्रह्माजी कहते हैं—इन्द्र ! जब सुरभीने इस प्रकार



कहा तो मैंने उसे यों उत्तर दिया—'देवि ! तुमने लोभका परित्याग करके निष्काम भावसे तप किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, अतः मैं तुम्हें अमर होनेका वरदान देता हूँ। अब मेरी कृपासे तीनों लोकोंके ऊपर तुम्हारा निवास होगा। तुम जहाँ वास करोगी, उसकी गोलोकके नामसे ख्याति होगी। तुम्हारी सभी शुभ सन्तानें मनुष्यलोकमें प्राणियोंके हितका कार्य करती हुई वहाँ निवास करेंगी। तुम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगोंका चिन्तन

करोगे, ये सब तुम्हें प्राप्त होंगे तथा सब प्रकारका सुख तुम्हारे लिये सदा सुखम रहेगा।'

इन्द्र ! सुरभीके निवासभूत गोलोकमें समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं। वहाँ मृत्यु, बुढ़ापा और अग्निका जोर नहीं चलता। दुर्दैव तथा अशुभकी भी वहाँ पहुँच नहीं है। उस लोकमें दिव्य वन, दिव्य भवन तथा परम सुन्दर एवं इच्छानुसार विचरनेवाले विमान मौजूद हैं। ब्रह्मचर्य, सत्य, इन्द्रियसंयम, नाना प्रकारके दान, पुण्य, तीर्थसेवन, बड़ी भारी तपस्या तथा अन्यान्य शुभ कर्मोंके अनुष्ठानसे ही गोलोककी प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार मैंने ये सारी बातें बतायी हैं। अब तुम्हें गौओंका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! यह कथा सुननेके परचात् इन्द्र सदा गौओंकी पूजा करने लगे। गौओंके प्रति उनके मनमें विशेष आदरका भाव जाग्रत हो गया। बेटा ! गौओंका यह परम पावन, परम पवित्र और अत्यन्त उत्तम माहात्म्य मैंने सब-का-सब तुम्हें सुना दिया। इसका कीर्तन समस्त पापोंसे छुटकारा दिलातेवाला है। जो सदा पवित्रचित्त होकर यज्ञ और धाड़में हृद्य और कव्य अर्पण करते समय ब्राह्मणोंकी यह प्रसंग सुनायेगा, उसका दान समस्त कामनाओंकी पूर्ण करनेवाला और अक्षय होकर पितरोंको प्राप्त होगा। गोभक्त पुरुष जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब उसे प्राप्त होती है। गौओंमें भक्ति रखनेवाली स्त्रियाँ भी मनोवाञ्छित कामनाएँ प्राप्त करती हैं।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! आपने सब मनुष्योंके लिये, विशेषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले नरेशोंके लिये परम उत्तम गोदानका वर्णन किया है। वेद और उपनिषदोंने भी प्रत्येक कर्ममें दक्षिणाका विधान किया है। सभी यज्ञोंमें मूषि, गौ और मुवर्णकी दक्षिणा बतलायी गयी है। इनमें मुवर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है—ऐसा श्रुतिका वचन है; अतः इस विषयकी मैं यथासंभवसे सुनना चाहता हूँ। मुवर्ण क्या है ? कब और किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई ? मुवर्णका उपादान क्या है ? इसका देवता कौन है ? तथा इसके दानका फल क्या है ? मुवर्ण क्यों उत्तम कहालाता है ? मनीषी विद्वान् इसके दानका क्यों विशेष आदर करते हैं ? तथा यज्ञकर्ममें मुवर्णकी ही दक्षिणा क्यों प्रशंसनीय समझी जाती है ?

भीष्मजीने कहा—राजन्—ध्यान देकर सुनो, मुवर्णकी उत्पत्तिका कारण बहुत विस्तृत है। मैं अपने अनुभवके अनुसार सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे महातेजस्वी पिता महाराज शान्तनुका जब देहावसान हो गया, तो मैं उनका धाड़ करनेके लिये गङ्गाद्वार तीर्थ (हरिद्वार) में गया। वहाँ

पहुँचकर मैंने पिताका धाड़ आरम्भ किया; इस कार्यमें माता गङ्गाजीने भी मेरी सहायता की। अपने सामने बट-नी सिद्ध महापियोंको बिठाकर मैंने जलदानसे लेकर सब कार्य पूर्ण किया। एकाग्रचित्त होकर शास्त्रोक्त विधिसे पिण्डदानके पहलेका सारा कार्य जय समाप्त कर लिया तो विधिबन्धु पिण्डदान देना आरम्भ किया। इतनेहीमें पिण्डके लिये जो कुछ बिछाये गये थे, उन्हें भेदकर एक बड़ी सुन्दर बाँह बाहर निकली। उस विशाल भुजामें बाजूबंद थादि अनेकों धामूपय



शोभा पा रहे थे। उसे ऊपर उठी देण मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साक्षात् मेरे पिता ही पिण्डका दान करनेके लिये उपस्थित थे। किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधिपर विचार किया तो मेरे मनमें सहसा यह बात स्मरण हो आयी कि मनुष्यके लिये हाथपर पिण्ड देनेका वेदमें विधान नहीं है। पिता साक्षात् प्रकट होकर कभी मनुष्यके हाथमें पिण्ड लेते भी नहीं हैं। शास्त्रकी आज्ञा तो यही है कि 'कुशोंपर पिण्डदान करे।' यह शोचकर मैंने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले हाथका आदर नहीं किया और शास्त्रीय प्रमाण मानकर उसकी सुझ विधिपर ध्यान रखते हुए कुशोंपर ही सब पिण्डोंका दान किया। इस प्रकार जब शास्त्रकी बदलिते पिण्डदान कर दिया तो मेरे पिताकी वह बाँह अदृश्य हो गयी। तदनन्तर, पितरोंने मुझे स्वप्नमें ब्रांन दिया और बड़े प्रसन्न होकर बोले—बेटा ! हम तुम्हारे शास्त्रीय ज्ञानसे बटन

प्रसन्न हैं; क्योंकि उसके कारण तुम मोहवश धर्मसे भ्रष्ट नहीं हुए हो। तुमने शास्त्रका प्रमाण मानकर आत्मा, धर्म, शास्त्र, वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु, प्रजापति और ब्रह्माजी—इन सबका मान बढ़ाया है तथा जो धर्ममें स्थित हैं, उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित नहीं होने दिया है। यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है; किंतु अब (हमारे कहनेसे) भूमिदान और गोदानके निष्क्रियरूपसे कुछ सुवर्णदान भी करो। ऐसा करनेसे हम और हमारे सभी पितामह पवित्र हो जायेंगे; क्योंकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन वस्तु है। जो सुवर्ण दान करते हैं, वे अपने पहले और पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देते हैं।' इस प्रकार जब पितरोंने कहा तो भरी गींद खुल गयी। उस समय इस स्वप्नका स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। फिर मैंने सुवर्णदान करनेका निश्चय किया।

राजन्! अब (सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके दानके माहात्म्यके विषयमें) एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो जम-दग्निनन्दन परशुरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाला है। यह उपाख्यान धन तथा आयु बढ़ानेवाला है। पूर्वकालकी बात है, परशुरामजीने क्रोधमें भरकर इक्कीस बार इस भूमण्डलके क्षत्रियोंका संहार किया। इसके बाद सम्पूर्ण पृथ्वी जीतकर उन्होंने समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया। उस यज्ञकी सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियोंने बहुत प्रशंसा की है। यद्यपि अश्वमेध यज्ञ सब प्राणियोंको पवित्र करनेवाला तथा तेज और कान्तिको बढ़ानेवाला है तो भी तेजस्वी परशुरामजी उसके फलसे अपनेको पापमुक्त न कर सके। इससे उन्होंने अपनेको बहुत तुच्छ समझा और प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न उस महान् यज्ञका अनुष्ठान पूर्ण करके अनेकों शास्त्रज्ञ ऋषियों और देवताओंके पास जाकर पूछा— 'महानुभावो! कठोर कर्म करनेवाले मनुष्योंको पवित्र करनेके लिये जो सर्वोत्तम साधन हो, वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।' परशुरामजीने जब दयासे द्रवित होकर इस प्रकार प्रश्न किया तो वेद-शास्त्रके जाननेवाले महर्षियोंने कहा— 'राम! तुम वेदोंके प्रमाणपर विचार करके ब्राह्मणोंका सत्कार करो और उन ब्रह्मर्षियोंसे ही अपनेको पवित्र करनेवाला साधन पूछो। वे जो कुछ बतावें उसीका प्रसन्नतापूर्वक पालन करो।'

तब महातेजस्वी परशुरामजीने वसिष्ठ, नारद, अगस्त्य और कश्यपजीके पास जाकर पूछा— 'विप्रवरो! मैं पवित्र होना चाहता हूँ, बताइये, किस उपायसे पवित्र हो सकता हूँ? इसके लिये मैं किस कर्मका अनुष्ठान करूँ? अथवा

कौन-सा दान दूँ? यदि आप लोग भुक्तपर कृपा करना चाहें तो बतलाइये, मुझे पवित्र करनेवाला साधन क्या है?



ऋषियोंने कहा— भृगुनन्दन! हमने सुना है कि पा करनेवाला मनुष्य पृथ्वी, गाय और धन दान करनेसे पवित्र हो जाता है। इसके सिवा, एक और दान सुनो, जो सबसे बढ़कर पावन है। वह है सुवर्णका दान। सुवर्णका आकार बड़ा दिव्य और अद्भुत होता है। उसकी उत्पत्ति अग्निसे हुई है। सुना जाता है, पूर्वकालमें अग्निने सम्पूर्ण लोकोंको भस्म करके अपने वीर्यसे सुवर्णको उत्पन्न किया था। उसीका दान करनेसे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। सारे जगत्का मन्थन करके जो तेजकी राशि प्रकट हुई है, वही सुवर्ण है; अतः यह सब रत्नोंसे उत्तम है। इसीलिये देवता, गन्धर्व, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच—ये सब प्रयत्नपूर्वक सुवर्ण धारण करते हैं। जगत्में जितनी पवित्र वस्तुएँ हैं, सुवर्ण उन सबसे अधिक पवित्र माना गया है। वह भूमि, गौ तथा सम्पूर्ण रत्नोंसे भी उत्तम है। पृथ्वी, गौ तथा और जो कुछ भी दान किया जाता है, उन सबसे बढ़कर सुवर्णका दान है। सुवर्ण अक्षय तथा पावन द्रव्य है, तुम उत्तम ब्राह्मणोंको सुवर्णका ही दान करो; यही पवित्रताका उत्तम साधन है। सब प्रकारकी दक्षिणाओंमें सुवर्ण देनेका विधान है। जो सुवर्णका दान करते हैं, वे सब कुछ दान करनेवाले माने जाते हैं। सुवर्ण देनेवाले मानो देवताका दान करते हैं, क्योंकि

अग्नि सम्पूर्ण देवताओंके स्वरूप हैं और सुवर्ण अग्निमय है। अतः जिसने सुवर्णका दान किया उसने सम्पूर्ण देवताओंका ही दान कर दिया। इसीलिये विद्वान् पुरुष सुवर्णदानसे बढ़कर और कोई दान नहीं मानते। सुवर्णदाता जब परम गतिको प्राप्त होता है, उस समय उसे ज्योतिर्मय शोक मिलते हैं तथा स्वर्णलोकमें उसका कुबेरके पदपर अभिषेक किया जाता है। जो सूर्योदयके समय विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर सुवर्णका दान करता है, वह अपने पाप और बु-वृष्यको नष्ट कर डालता है। जो मध्याह्न कालमें सोना दान करता है, उसके भविष्य पापोंका नाश हो जाता है। जो व्रतका पालन करते हुए सायंकालमें सुवर्ण दान देता है, वह ब्रह्मा, वामु, अग्नि और चन्द्रमाके लोकमें जाता है तथा इन्द्र आदिके लोकमें भी उसे सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही यह इस लोकमें यशस्वी एवं पापरहित होकर आनन्दका उपभोग करता है। मृत्युके पश्चात् जब वह परलोकमें जाता है तो वहाँ अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता है, कहीं भी उसकी

गतिका प्रतिरोध नहीं होता और वह इच्छानुसार जहाँ चाहता है, विचरता रहता है। सुवर्ण अक्षय इन्द्र है, उसका दान करनेवाले मनुष्यको पुण्यलोकमें ले जाने नहीं आना पड़ता, संसारमें उसके महान् यशका विस्तार होता है तथा वह अनेकों समृद्धिशाली लोकोंको प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्योदयके समय आग जलाकर कित्ती व्रतके उद्देश्यसे सुवर्णदान करता है; उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं। परमुरामञ्जी। इस प्रकार तुम्हें सुवर्णदानसे होनेवाले साम बतलाये गये; अतः अब तुम ब्राह्मणोंको सुवर्ण-दान करो।

भीष्मजी कहते हैं—प्रतापी परमुरामञ्जीने बलिष्ठ आदि मुनियोंके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मणोंको सुवर्णका दान दिया; इससे ये सब पापोंसे छूटकारा पा गये। मुग्धिष्ठिर। सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके दानका माहात्म्य सब तुमको मुना दिया। अब तुम भी ब्राह्मणोंकी बहुत-सा सोना दान करो। इससे तुम्हें पापोंसे छूटकारा मिल जायगा।

भिन्न-भिन्न तितियों और नक्षत्रोंमें धाढ़ करनेका तथा उसमें तिल आदि देनेका फल

मुग्धिष्ठिरने कहा—धर्मात्मन्! अब आप मुझे धाढ़की पूरी-पूरी विधि बताइये।

भीष्मजीने कहा—राजन्! तुम धाढ़कर्मको उत्तम विधिसे ध्यान देकर मुनो; पितृपूज (धाढ़) धन, भग तथा पुत्रकी प्राप्ति करानेवाला है। देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस, पिशाच तथा किन्नरोंको भी सदा पितरोंकी पूजा करनी चाहिये। सभी दिनोंमें धाढ़ करनेसे पितरोंकी प्रसन्नता होती है। अब मैं तुम्हें तितियोंके गुण-अवगुण बतला रहा हूँ। (कृष्णपदाकी) प्रतिपदा तितिको पितरोंकी पूजा करनेपर बहुत-सी सुख और सुयोग्य संतानोंकी जन्म देनेवाली रूपवती तिसर्ग प्राप्त होती है। द्वितीयाकी धाढ़ करनेसे घरमें कन्याएँ पैदा होती हैं। तृतीयाकी धाढ़ करनेसे घोड़े मिलते हैं। चतुर्थीकी धाढ़ करनेसे बहुतेरे छोटे-छोटे पशु घरमें आते हैं। पंचमीकी धाढ़ करनेवाले पुरुषोंके यहाँ बहुत-से पुत्र उत्पन्न होते हैं। षष्ठीकी धाढ़ करनेसे सौन्दर्यकी वृद्धि होती है। सप्तमीकी धाढ़ करनेवाले मनुष्यकी पत्नी अच्छी होती है। अष्टमीकी धाढ़ करनेसे व्यापारमें लाभ होता है। नवमीके धाढ़से एक पुरवाले पशु (घोड़े-सूचकर आदि) की वृद्धि होती है। दशमीकी धाढ़ करनेवाले पुरुषकी गोएँ बढ़ती हैं। एकादशीकी धाढ़ करनेसे बतन और रूपसे मिलते हैं तथा घरमें ब्रह्मतेजसे सम्पन्न पुत्रोंका जन्म होता है। द्वादशीकी धाढ़ करनेवाले

मनुष्यके यहाँ सदा सोने-चाँदी और अधिक धनकी वृद्धि होती देती जाती है। त्रयोदशीकी धाढ़ करनेवाला पुरुष अपने जाति-बन्धुओंमें सम्मानित होता है। क्विबु जो चतुर्दशीकी धाढ़ करता है, उसके घरवाले मनुष्य जवानोंमें ही मर जाते हैं और धाढ़कर्ताको भी शीघ्र ही सड़ाईमें जाना पड़ता है। अमावास्यामें धाढ़ करनेसे मनुष्यकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। कृष्णपक्षमें चतुर्दशीके तिया, दशमीसे लेकर अमावस्यातककी सभी तितियाँ धाढ़के लिये उत्तम मानी गयी हैं; अन्य तितियाँ इनके समान नहीं हैं। धाढ़के लिये भैंसे शबलपक्षकी अपेक्षा कृष्णपदा श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार पूर्वाह्नकी अपेक्षा अपराह्नकाल श्रेष्ठ माना गया है।

मुग्धिष्ठिरने पूछा—दशमी। पितरोंकी दान की हुई कौन-सी वस्तु अक्षय होती है? कौन-सा हविष्य जहाँ अधिक शक्तक तृप्त रहता है और कौन-सा अन्नत फलतक?

भीष्मजीने कहा—मुग्धिष्ठिर! धाढ़के तत्त्वकी जानने-वाले विद्वानोंने धाढ़कल्पमें जिन-जिन वस्तुओंकी हविष्यके रूपमें पाह्य और कामनापूर्तिका साधक माना है, उन्हें बला रहा हूँ, साथ ही उनके उपयोगका जो फल है उसका भी वर्णन करता हूँ, मुनो—तिल, चावल, जौ, जई, जल और फल-मूल देनेसे पितरोंकी एक माताक वृद्धि बनी एनी है। मनुजीका यचन है कि 'जिस धाढ़में तिलोंका अधिप उपयोग किया जाता है, वह मक्षय होता है।' अतः धाढ़के

कराया जाता है, वह राससोंको प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण श्राद्धका अन्न भोजन करके फिर उस दिन वेद पढ़ता है तथा जो शूद्रा स्त्रीसे समागम करता है, उसके पितर उन दिनसे लेकर एक महानैतिक उसीकी विष्टामें पड़े रहते हैं। सोमरस बेचनेवालेको विष्टा हुआ श्राद्धका अन्न विष्टाके समान और बंधकों जितनामा हुआ श्राद्धान्न खत एवं पीवके समान समझा जाता है। मन्दिरेके पुजारीको दिया हुआ अन्न नष्ट हो जाता है। मूदलोरको दिया हुआ दान स्थिर नहीं रहता और व्यापार करनेवाले ब्राह्मणको जो कुछ दिया जाता है वह न तो इस लोकमें काम आता है न परलोकमें। जो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्रीके पेटसे पैदा हुआ हो ऐसे ब्राह्मणको दिया हुआ हव्य और कव्य राखमें हवन करनेके समान निष्फल होता है। जो सोम धर्महीन और दुराचारी ब्राह्मणोंको हव्य-कव्य अपंग करते हैं, उनका वह दान परलोकमें कोई फल नहीं देता। जो मूख जान-बूझकर ऐसे लोगोंको श्राद्धका दान देते हैं उनके पितर परलोकमें विष्टाका भोजन करते हैं। ऊपर बताया है इन्हीं अथम ब्राह्मणोंकी अपांश्वेय (पंक्ति-रूपक) समझना चाहिये। जो मन्दबुद्धि ब्राह्मण शूद्रोंको उपदेश देते हैं, उनको भी इसी कौटिमे समझना चाहिये। यदि श्राद्धभोजी ब्राह्मणोंकी पंक्तिमें कोई काना बेटा हो तो वह उस पंक्तिके साठ ब्राह्मणोंको दूषित करता है। इसी तरह नपुंसक सौ ब्राह्मणोंको और फोड़ो जितने लोगोंपर दृष्टि डालता है, उन सबको अपवित्र कर देता है। स्थिरपर पगड़ी रखकर, दक्षिणामुख होकर तथा जूते पहनकर जानेवाले ब्राह्मण श्राद्धका जितना अन्न भोजन करते हैं, वह सब अनुष्ठानका भाग समझना चाहिये। जो ईर्ष्या और अश्रद्धापूर्वक श्राद्धका दान करता है वह सब ब्रह्मजीने असुरराज बलिका भाग निश्चित कर दिया है। कुत्ते और पंक्तिरूपक ब्राह्मण किसी तरह श्राद्धपर दृष्टि न डालने पावें, इसके लिये चारों ओरसे घिरे हुए स्थानमें श्राद्ध-दानकी व्यवस्था करनी चाहिये और सब ओर रखाके उद्देश्यसे तिल छोटने चाहिये। तिलोंके बिना और शोधके योग्य होकर जो श्राद्ध किया जाता है, उसके हविष्यको दातुधान और पिशाच नष्ट कर डालते हैं। पंक्तिरूपक ब्राह्मण पंक्तिमें बंठकर भोजन करते हुए जितने ब्राह्मणोंको देख लेता है उतने ब्राह्मणोंके भोजनसे मिलनेवाले फलसे वह बातोंको घञ्चित कर देता है।

भरतश्रेष्ठ! अब मैं तुम्हें पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका परिचय देता हूँ। जो ब्राह्मण विष्टा और वेदव्रतमें निष्ठा होकर सदाचारपरामर्श रहते हैं, वे सबको पवित्र करनेवाले हैं। मैं उनको पंक्तिमें बिठाने योग्य मानता हूँ। उन सबको

पंक्तिपावन समझना चाहिये। जो त्रिणाचिन्त मन्त्रका अध्ययन करनेवाले, गार्हपत्य आदि पाँच अग्निषोके उपासक, त्रिसुपर्णमन्त्रोंके ज्ञाता, पशुधर्मके विद्वान्, ब्रह्मेतिहासके बंशमें उत्पन्न, साग्येदके ज्ञाता, ग्येष्ठ सामका गान करनेवाले और माना-पिताकी आज्ञामें रहनेवाले हैं, जिनके यहाँ दस षोडशोपे वेदाध्ययनकी परम्परा चली आती है तथा जो ऋतुशक्तमें अपनी ही स्त्रीके साथ समागम करते हैं, ऐसे वेदविद्या और व्रतमें प्रवीण ब्राह्मण पंक्तिको पवित्र करनेवाले समझे जाते हैं। अथर्ववेदके ज्ञाता, ब्रह्मचारी, नियमपूर्वक व्रतका पातन करनेवाले, सत्यवादी, धर्मज्ञ तथा अपने कर्तव्यमें तत्पर रहनेवाले पुण्य भी पंक्तिपावन हैं। जिन्होंने पुण्यतीर्थोंमें गौंसे भगानेके लिये परिश्रम किया है, वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक अनेकों प्रयोगोंका अनुष्ठान करनेके अवस्य-स्नान किया है; जो शोधरहित, गर्भार, क्षमाशील, मनकी वशमें रहनेवाले, जितेन्द्रिय और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें लगे रहनेवाले हैं, जहाँ ब्राह्मणोंको श्राद्धमें निमन्त्रित करना चाहिये; बर्षोंके पंक्तिपावन हैं और उन्हें दिया हुआ दान अक्षय होता है। इनके सिवा जो मोक्षधर्मको जाननेवाले यति और उत्तम प्रकारसे व्रतका पातन करनेवाले योगी हैं, जो मुद्बन्धित होकर उत्तम ब्राह्मणोंकी इतिहास सुनते हैं, जो महात्म्य और व्याकरणके विद्वान् हैं तथा जो पुराण और धर्मशास्त्रोंका ग्यायपूर्वक अध्ययन करते उनकी आज्ञाके अनुसार विधिबन्त आचरण करनेवाले हैं, जिन्होंने नियमित समयतक गुरुकुलमें निवास करके वेदाध्ययन किया है, जो परीक्षाके सहस्रो अवसरपर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं तथा जो चारों वेदोंके पढ़ने-पढ़ानेमें अग्रगण्य हैं, ऐसे ब्राह्मण पंक्तिको जितनी दूर देखते हैं उतनी दूरमें घंटे हुए ब्राह्मणोंको पवित्र कर देते हैं। पंक्तिको पवित्र करनेके कारण ही उन्हें पंक्तिपावन कहा जाता है। ब्रह्मवादी बहते हैं कि वेदकी शिखा देनेवाले एवं ब्रह्मज्ञानी पुरुषोंके बंशमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अकेला ही माझे तीन कोसतन्त्रका स्थान पवित्र कर सकता है, इसलिये सब प्रकारकी वेदाभ्यासे ब्राह्मणोंकी परीक्षा करके ही उन्हें श्राद्ध में निमन्त्रित करना चाहिये। जितके द्वारा किये हुए श्राद्धके भोजनमें मित्रोंकी प्रधानता रहती है, उसके उस श्राद्धसे पितरोंकी तृप्ति नहीं होती तथा जो मनुष्य श्राद्धमें भोजन देकर दूसरोंसे मित्रता जोड़ता है, वह मनुष्यके बाद देवयानमागसे नहीं जाने पाता। जैसे पीपलका फल डंठलमें टूटकर नीचे गिर जाता है वैसे ही श्राद्धकी मित्रताका साधन बनानेवाला पुण्य स्वर्गलोकमें घट्ट हो जाता है; इसलिये श्राद्धकर्ताको चाहिये कि वह श्राद्धमें मित्रोंकी निमन्त्रण न करे। मित्रोंकी संतुष्ट करनेके लिये धन देना उचित है।

श्राद्ध और यज्ञमें भोजन तो उसे ही कराना चाहिये जो शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो। जैसे ऊसरमें बोया हुआ बीज न तो जमता है और न बोनेवालेको उसका कोई फल ही मिलता है, उसी प्रकार अयोग्य ब्राह्मणोंको भोजन कराया हुआ श्राद्धका अन्न न इस लोकमें लाभ पहुँचाता है, न परलोकमें कोई फल देता है। जैसे घास-फूसको आग शीघ्र ही शान्त हो जाती है, उसी प्रकार स्वाध्यायहीन ब्राह्मण तेजहीन होता है, अतः उसे श्राद्धका दान नहीं देना चाहिये; क्योंकि राखमें कोई भी हवन नहीं करता। जो लोग एक दूसरेके यहाँ श्राद्धमें भोजन करके परस्पर दक्षिणा देते और लेते हैं, उनकी वह दान-दक्षिणा पिशाचदक्षिणा कहलाती है। वह न देवताओंको मिलती है, न पितरोंको। जिसका बछड़ा मर गया है ऐसी पुण्यहीना गौ जैसे दुखी होकर गोशालामें ही चबकर लगाती रहती है, उसी प्रकार आपत्तमें दी और ली हुई दक्षिणा इसी लोकमें रह जाती है, वह पितरोंतक नहीं पहुँचने पाती। जैसे आग बुझ जानेपर जो धूतका हवन किया जाता है उसे न देवता पाते हैं न पितर; उसी प्रकार नाचने-वाले, गवँये और मूठ बोलनेवाले अपात्र ब्राह्मणको दिया हुआ दान निष्फल होता है। अपात्र पुरुषको दी हुई दक्षिणा न दाताको तृप्त करती है न दान लेनेवालेको; प्रत्युत दोनोंका

ही नाश करती है। यही नहीं, वह बिनाशकारिणी निन्दित दक्षिणा दाताके पितरोंको देवयान-भागमें नीचे गिरा देती है। युधिष्ठिर! जो सदा ऋषियोंके वताये हुए धर्ममार्ग-पर चलते हैं, जिनकी वृद्धि एक निश्चयपर पहुँची हुई है तथा जो सम्पूर्ण धर्मके ज्ञाता हैं, उन्हींको देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। ऋषि-मुनियोंमें कोई स्वाध्यायनिष्ठ, कोई ज्ञाननिष्ठ, कोई तपोनिष्ठ और कोई कर्मनिष्ठ होते हैं। उनमें ज्ञाननिष्ठ महर्षियोंको ही श्राद्धका अन्न जिमाना चाहिये। जो लोग ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीं करते, वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो दात-श्रीतमें ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं, उन्हें श्राद्धमें भोजन नहीं कराना चाहिये। मैंने वानप्रस्थ ऋषियोंका यह वचन सुना है कि 'ब्राह्मणोंकी निन्दा होनेपर वे निन्दा करनेवालेको तीन पीढ़ियोंका नाश कर डालते हैं।' वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको दूरसे ही परीक्षा करनी चाहिये। वेदज्ञ पुरुष अपना प्रिय हो या अप्रिय इसका विचार न करके उसे श्राद्धमें भोजन कराना चाहिये। जो दस लाख अपात्र ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, उसके यहाँ उन सबके बदले एक ही सदा संतुष्ट रहनेवाला वेदज्ञ ब्राह्मण भोजन करनेका अधिकारी है (अर्थात् लाखों मूर्खोंकी अपेक्षा एक सत्पात्र ब्राह्मणको भोजन कराना उत्तम है।)

श्राद्धके विषयमें महर्षि निम्निको अत्रिका उपदेश तथा अन्य ज्ञातव्य बातें

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! श्राद्ध कब प्रचलित हुआ? सबसे पहले किस महर्षिने इसका प्रचार किया? यदि भृगु और अङ्गिराके समयमें इसका प्रारम्भ हुआ हो तो किस मुनिने इसको प्रकट किया? श्राद्धमें कौन-कौन-से कर्म, कौन-कौन फल-मूल और कौन-कौन-से अन्न त्याग देने योग्य हैं?

भ्रीष्मजीने कहा—राजन्! श्राद्धका जिस समय और जिस प्रकार प्रचलन हुआ, जो इसका स्वरूप है तथा सबसे पहले जितने इसका प्रचार किया, वह सब तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। प्राचीनकालमें ब्रह्मजीसे महर्षि अत्रिको उत्पत्ति हुई। वे बड़े प्रतापी ऋषि थे। उनके वंशमें भगवान् दत्तात्रेयजीका प्रादुर्भाव हुआ। दत्तात्रेयके पुत्र निमि हुए, जो बड़े तपस्वी थे। निमिके भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम या श्रीमान्! वह बड़ा सुन्दर था। उसने एक हजार वर्षोंतक बड़ी कठोर तपस्या करके अन्तमें काल-धर्मके अधीन होकर प्राण त्याग दिया। महर्षि निमिको पुत्रशोकके कारण बहुत संताप हुआ तो भी उन्होंने शास्त्रविधिके अनुसार अशौच-निवारणकी सारी क्रियाएँ कीं। फिर सतुदंशीके दिन श्राद्धमें देने योग्य सब वस्तुएँ एकत्रित करके रात बीतनेपर (अमा-

वास्याको श्राद्ध करनेके लिये) वे बड़े सवेरे उठे। प्रातःकाल जागनेपर उनका मन पुत्रशोकसे व्यथित होता रहा, किंतु उनकी वृद्धि बड़ी वित्तुत थी, उसके द्वारा उन्होंने मनको शोककी ओरसे हटाया और एकाग्रचित्त होकर श्राद्धविधिकी विचार किया। फिर श्राद्धके लिये शास्त्रोंमें जो फल-मूल और अन्न आदि भोज्यपदार्थ वताये गये हैं तथा उनमेंसे जो-जो पदार्थ उनके पुत्रको प्रिय थे—उन सबका विचार करके उन्होंने संग्रह किया। तदनन्तर, उन बुद्धिमान् मुनिने अमावास्याके दिन सात ब्राह्मणोंको बुलाकर उनको पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें कुशके आसनपर बिठाया। फिर उन सातोंको एक ही साथ भोजनके लिये अलौना सावाँ परोसा। इसके बाद भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके पैरोंके नीचे आसनोपर उन्होंने दक्षिणाएँ कुश बिछा दिये और अपने सामने भी दक्षिणाएँ कुश रखकर पवित्र एवं सावधान हो अपने पुत्र श्रीमान्के नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए कुशोंपर पिण्डदान किया।

इस प्रकार श्राद्ध करनेके पश्चात् मुनिश्रेष्ठ निमिको बड़ा परचात्ताप होने लगा (वेदमें पिता-पितामह आदिके उद्देश्यसे जिस श्राद्धका विधान है, उसको मैंने स्वेच्छामें पुत्रके निमित्त

किया है—यह सोचकर) उन्होंने अपनेमें धर्म-संकरताका दोष माना। अतः मन-ही-मन बहुत संतप्त होकर वे सोचने लगे—'अहो! मुनिपति जो कार्य पहले कभी नहीं किया, उसे मैंने ही क्यों कर डाला? मेरे इम मनमाने वताधिको देतकर ब्राह्मणत्वोण मुझे अपने शापसे अवश्य भस्म कर डालेंगे।' यह बात ध्यानमें याते ही उन्होंने अपने बंश-प्रवर्तक महर्षि अत्रिका स्मरण किया। निमिके ध्यान करते ही तपोधन अत्रि वहाँ आ पहुँचे। आनेपर जब उन्होंने निमिको पुत्रयोक्तसे बुझी देखा तो मधुर वाणीके द्वारा उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—'बेटा! तुमने जो यह पितृ-यज्ञ (श्राद्ध) किया है, इससे डरो मत। सबसे पहले स्वयं ब्रह्माजीने इस धर्मका ज्ञान प्राप्त किया है और ये ही इसके प्रवर्तक भी हैं। उन्हींके द्वारा विहित धर्मका तुमने अनुष्ठान किया है। ब्रह्माजीके सिवा दूसरा कौन श्राद्ध-विधिका उपदेश कर सकता है? अब मैं तुमसे स्वयम्भूको बतायी हुई श्राद्धकी उत्तम विधिका वर्णन करता हूँ, इसे सुनो और सुनकर इसी विधिके अनुसार श्राद्धका अनुष्ठान करो। पहले ये-मन्त्रके उच्चारणपूर्वक अग्निकरणको क्रिया पूरी करके फिर अग्नि, सोम, घृण और पितरोंके साथ रहनेवाले विश्वेदेवोंको उनका भाग अर्पण करे। साक्षात् ब्रह्माजीने इनके मार्गोंको कल्पना की है। तदनन्तर, श्राद्धकी आध्यात्मता पृथ्वीकी वेदणी, काश्यपी और अक्षया आदि नामोंसे स्तुति करने की चाहिये। श्राद्धके लिये जल साते समय भगवान् घृणका स्तवन करके अग्नि और सोमको भी तृप्त करना चाहिये। ब्रह्माजीके उत्पन्न किये हुये कुछ देवता ही पितरोंके नामसे प्रतिष्ठ हैं; उन्हें 'उत्पन्न' भी कहते हैं। स्वयम्भूने श्राद्धमें उन्हींका भाग निश्चित किया है। श्राद्धके द्वारा उनको पूजा करनेसे श्राद्ध-कर्ताके पिता-पितामह आदि पितरोंका नरकसे उद्धार हो जाता है। ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जिन अमिषवात्त आदि पितरोंको श्राद्धका अधिकारी बताया है, उनको संख्या सात है। विश्वेदेवोंकी चर्चा तो मैंने पहले ही की है, उन सबका मुख अग्नि है। वे सभी न्योग यज्ञमें भाग प्राप्त करनेके अधिकारी हैं, उनके नाम ये हैं—बल, द्युति, विष्णु, पुण्यवृत्, पावत, पार्ष्णिदेवमा, समूह, विष्णुमान्, विवस्वान्, वीर्यवीर्य, ह्रीमान्, कीर्तिमान्, हृत्, जितात्मा, मुनिवीर्य, दीप्तरोमा, स्यंरु, अनुकर्मा, प्रतीत, प्रशान्ता, अंशुमान्, शंसाभ, परमवीथी, धीरोष्णी, भूपति, धन, बन्धी, बरी, विष्णुर्वा, सोमवर्चा, सूर्यधी, सोमप, सूर्य, सावित्र, दत्तात्मा, पुष्टरोयक, उत्पन्नोत्तम, नभोद, त्रिवाम्पु, दौर्ल, चमूह, सुरेश, व्योमादि, शंकर, भव, ईश, कर्ता, इति, दक्ष, भुवन, विष्णुकर्मवृत्, गणित, पंचवीर्य, आदित्य, रश्मिमान्, सप्तवृत्,

विश्ववृत्, ऋषि, अनुगोप्ता, सुगोप्ता, नप्ता और ईश्वर। इस प्रकार सनातन विश्वेदेवोंके नाम ब्रह्मनामे गये।

'अथ श्राद्धमें निविद्य वस्तुओंका वर्णन करता हूँ। अनाज-मे कौदी और पुलक (पद्मया घान); हिन्दुद्वय (टोकरनेके काम आनेवाले पचायों) में हाँग, सहस्रु और प्याज; गाणों-में सहजिन, कचवार, गाजर, कौड़िया, अयिला और सोबी आदि, बाला नमक, काला जोरा, बिरियानमक, गोनराकी (शाक), शां-करीर आदिके अद्भुत और निष्पादा—ये सब वस्तुएँ शास्त्रमें व्रजित हैं। सब प्रकारके नमक, जायनेके फल तथा धोंक या आंगूठे द्रुपित हुए पशायं भी श्राद्धमें त्याग देने चाहिये। श्राद्ध और यज्ञमें सुवर्गन नामक शाक निवृत्त माना गया है। उसके हृदिष्पने देवता और पितर नहीं श्राद्ध होते। श्राद्ध आरम्भ करनेके समय उस स्थानको चाण्डाल और श्वपथोंको हटा देना चाहिये, इसी तरह गेरुआ कपड़ा धारण करनेवाला मनुष्य, कौड़ी, पतित, ब्रह्महत्यापार, वर्णसंकर ब्राह्मण तथा धर्मघट्ट सम्बन्धी भी यदि श्राद्धभूमिके आसपास पड़ा हो तो उसे हटा देना चाहिये। पिण्डदानके समय इन सबको दूर कर देना ही उचित है।'

श्रीधर्मजी कहते हैं—इस प्रकार अपने वंशज महर्षि निमिको श्राद्धका उपदेश देकर महानपराधी अत्रि मुनि ब्रह्माजीको दिव्य सन्नामें चले गये। धर्मराज! इस प्रकार पहले निमिने श्राद्धका आरम्भ किया, उसके बाद सभी महर्षि उनको देखा देखी शास्त्रविधिके अनुसार पितृ-यज्ञका अनुष्ठान करने लगे। नियमपूर्वक ऋत धारण करनेवासे धर्मपरायण श्रद्धि पिण्डदान करनेके परचात् तोषिके जसमे पितरोंका तर्पण भी करते थे। धीरे-धीरे चारों वर्णोंके लोग श्राद्धमें देवताओं और पितरोंको अन्न देने लगे। सगणतार श्राद्धमे भोजन करते-करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गये। अब वे अन्न पचानेके प्रयत्नमे लगे। अज्ञोर्गसे उन्हें विषाण बन्ट होने लगा। तब वे सोम देवताके पास जाकर बोले—'मपवन्! हम निरन्तर श्राद्धका अन्न भोजन करनेके कारण अज्ञोर्गने पीड़ित हो रहे हैं। अब आप हमनोगोंका कल्याण कौत्रिये।' तब सोमने उनसे कहा—'देवताओ! यदि आपनोग कल्याण चाहते हैं तो ब्रह्माजीकी मर्यामें जाइये, वे ही आप-सोगोंका बन्ट दूर करेंगे।' सोमकी आज्ञा सुनकर देवता और पितर मेरके सापरपर विराजमान ब्रह्माजीके पास गये और इस प्रकार बहने लगे—'प्रणयन! श्राद्धका अन्न खाते-खाते हमें अज्ञोर्ग हो गया है, इससे हम बहुत बन्ट या रहे हैं, आप हृषा करके हमसोगोंका कल्याण कौत्रिये।'

देवताओंको आज्ञा सुनकर ब्रह्माजी बोले—'ब्रह्मण! मेरे निबन्ध वे अग्निदेव विराजमान हैं। वे ही तुम्हारे कल्याण-

की बात बतायेंगे।' अग्नि बोले—'देवताओं और पितरों ! अवशे श्राद्धमें हमलोग साथ ही भोजन किया करेंगे। मेरे साथ रहनेसे आपलोगोंका अजीर्ण दूर हो जायगा।' यह मुनकर उनकी चिन्ता मिट गयी; इसीलिये श्राद्धमें पहले अग्निका भाग दिया जाता है। अग्निमें हवन करनेके बाद जो पितरोंके निमित्त पिण्डदान दिया जाता है उसे ब्रह्मराक्षस नहीं दूषित करते। श्राद्धमें अग्निदेवको उपस्थित देखकर राक्षस वहाँसे भाग जाते हैं। सबसे पहले पिताको, उनके बाद पितामहको और उनके बाद प्रपितामहको पिण्ड देना चाहिये—यही श्राद्धकी विधि है। प्रत्येक पिण्ड देते समय एकाग्रचित्त होकर गायत्री-मन्त्रका जप तथा 'सोमाय पितृमते स्वाहा' का उच्चारण करना चाहिये। रजस्वला और कनकटौ स्त्रीको श्राद्धभूमिमें न उपस्थित होने दे। दूसरे कुलकी स्त्रीको श्राद्धका भोजन तैयार करनेमें न लगावे। तर्पण करते समय पिता-पितामह आदिके नामका उच्चारण करे। किसी नदी-के किनारे पहुँचनेपर पितरोंका पिण्डदान और तर्पण अवश्य करना चाहिये। पहले अपने कुलके पितरोंको जलसे तृप्त

करके पश्चात् मित्रों और सम्बन्धियोंको जलाञ्जलि देने चाहिये। चित्तकवरे वँलोंसे जुती हुई गाड़ीमें बँठकर नदी-पार करते समय वँलोंकी पूँछसे पितरोंका तर्पण करना चाहिये; क्योंकि पितर वैसे तर्पणकी अभिलाषा रखते हैं। इसी तरह नावसे नदी-पार करनेवालोंको भी पितरोंका तर्पण करना चाहिये। जो तर्पणके महत्त्वको जानते हैं वे नावमें बँठनेपर एकाग्रचित्त हो अवश्य ही पितरोंको जलदान करते हैं। कृष्णपक्षमें जब महीनेका आधा समय बीत जाय, उस दिन अर्थात् अमावास्या तिथिको अवश्य श्राद्ध करना चाहिये। पितरोंकी भक्तिसे मनुष्यको पुष्टि, आयु, वीर्य और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। ब्रह्माजी, पुलस्त्य, वसिष्ठ, पुलह, अङ्गिरा, ऋतु और महर्षि कश्यप—ये सात ऋषि महान् योगेश्वर और पितर माने गये हैं। इस प्रकार यह शास्त्रकी उत्तम विधि बतायी गयी। मरे हुए मनुष्य अपने वंशजोंद्वारा पिण्डदान पाकर प्रेतत्वके कण्ठसे छुटकारा पा जाते हैं। राजा युधिष्ठिर ! यह मैंने शास्त्रके अनुसार तुम्हें श्राद्धकी उत्पत्तिका प्रसंग सुनाया है।

उपवास और ब्रह्मचर्य आदिके लक्षण तथा प्रतिग्रहके दोष बतानेके लिये राजा वृषादाभि और सप्तर्षियोंकी कथा

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! यदि व्रतधारी विप्र किसी ब्राह्मणकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसके घर श्राद्धका अन्न भोजन कर ले तो इसे आप कैसे मानते हैं ? (अपने व्रतका लोप करना उचित है या ब्राह्मणकी प्रार्थना ठुकराना ?)

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! जो वेदोक्त व्रतका पालन नहीं करते, वे ब्राह्मणकी इच्छा-पूर्तिके लिये (अपने सामान्य नियमका त्याग करके) श्राद्धमें भोजन कर सकते हैं; किन्तु जो वैदिक व्रतका पालन कर रहे हों, वे यदि किसीके अनुरोधसे श्राद्धका अन्न ग्रहण करते हैं तो उन्हें अपना व्रत भङ्ग करनेके दोषका भागी होना पड़ता है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! साधारण लोग जो उपवासको ही तप कहा करते हैं, उसके सम्बन्धमें आपकी क्या धारणा है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि वास्तवमें उपवास ही तप है या उसका और कोई स्वरूप है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! जो लोग पंद्रह दिन या एक महौनेतक उपवास करके उसे तपस्या मानते हैं, वे वश्य ही अपने शरीरको फाट देते हैं। वास्तवमें केवल उपवास करनेवाले न तपस्वी हैं, न धर्मज। त्यागका सम्पादन ही मयने उत्तम तपस्या है। ब्राह्मणको सदा उपवासी (व्रत-

परायण), ब्रह्मचारी, मुनि और वेदोंका स्वाध्यायी होना चाहिये। धर्मपालनकी इच्छासे ही उसको स्त्री आदि कुटुम्बका संग्रह करना चाहिये (विषय-भोगके लिये नहीं)। ब्राह्मणको उचित है कि वह सदा जाग्रत् रहे, मांस कमी न खाय, पवित्र भावसे वेदका पाठ करे, सदा सत्य भाषण करे और इन्द्रियोंको संयममें रखे। उसको सदा अमृताशी, विघ्नसाशी और अतिथिप्रिय होना चाहिये।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! ब्राह्मण सदा उपवासी, ब्रह्मचारी, विघ्नसाशी और अतिथिप्रिय कैसे हो सकता है ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! जो मनुष्य केवल प्रातःकाल और सायंकालमें ही भोजन करता है, बीचमें कुछ नहीं खाता उसे सदा उपवासी समझना चाहिये। जो केवल ऋतुकालमें धर्मपत्नीके साथ सहवास करता है, वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है। सदा दातृ देनेवाला पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है। जो दिन में नहीं सोता, वह सदा जाग्रत् रहनेवाला कहलाता है। जो सदा मृत्यों और अतिथियोंके भोजन कर

१. माता, पिता, स्त्री-बालक आदि कुटुम्बके सभी प्राणी मृत्यु (भरण-प्रापणके योग) कहलाते हैं।

लेनेके बाद ही स्वयं भोजन करता है, यह केवल अमृत भक्षण करनेवाला (अमृतांगी) है। जबतक ब्राह्मण न भोजन कर ले तबतक जो अन्न ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य अपने उस ऋतके द्वारा स्वर्गलोकपर विजय पाता है। जो देवताओं, पितरों और आश्रितोंको भोजन करानेके बाद बचे हुए अन्नको ही स्वयं भोजन करता है, उसे विधवागी कहते हैं। उन मनुष्योंको ब्रह्मधाममें अक्षय सौंदर्योंकी प्राप्ति होती है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! मनुष्य ब्राह्मणोंको नाता प्रकारकी वस्तुएँ दान देते हैं, किन्तु दाता और दान लेने वालेमें क्या विशेषता होती है?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! ब्राह्मण सज्जन पुरुषसे भी दान लेते हैं और दुर्जनसे भी; किन्तु गुणवान् (सज्जन) पुरुषसे दान लेनेपर उन्हें कम दोष लगता है और गुणहीन (दुर्जन) से दान लेनेपर वे अगाध नरकमें डूब जाते हैं। इस विषयमें राजां वृषादभि और सप्तर्षियोंके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, एक समयकी बात है, कश्यप, अत्रि, यमिष्ठ, भरद्वाज, गोमन्, विश्वामित्र, जम्बवन् और पतिव्रता देवी अरुणधनी—ये सब लोग समाधिः द्वारा सनातन ब्रह्मलोकको प्राप्त करनेकी इच्छामें तपस्या करते हुए इस पृथ्वीपर विचर रहे थे। इन सबको सेवा करनेवाली एक दासी थी, जिसका नाम था गण्डा। वह पशुसल नामक एक शून्के साथ ब्याही गयी थी (पशुसल भी इन्हीं महर्षियोंके साथ रहकर सबको सेवा किया करता था)। एक बार पृथ्वीपर बहुत कालतक वर्षा नहीं हुई। संसारमें घोर अकाल पड़ गया। सभी लोग भूयो मरने लगे। इसी समय शिविके पुत्र राजा वृषादभि घूमते-फिरते उसी मार्गसे आ निकले, जहाँ ये सप्तर्षि मौजूद थे। उन्हें अन्नके लिये कष्ट पाते देख राजाने कहा—'तपोधनो! यदि आपलोग दान लेना स्वीकार करें तो वह आपनो भूखके कष्टसे बचा सकता है। उससे आपलोगोंका यह दुबल शरीर हृष्ट-मुष्ट हो जायगा। अतः प्रतिग्रह स्वीकार कीजिये और मेरे पास जितना धन है, उसमेंसे इच्छानुसार माँगिये। मुझे ब्राह्मण बहुत ही प्रिय हैं। आपलोगोंके मांगनेपर मैं प्रत्येकको एक-एक हजार खच्चरियाँ, भारी योद्धा होनेवाले मकैद रगके मोटे-ताजे दस हजार बल, सफेद रोएँवाली नदी ब्याघी हुई हृष्ट-मुष्ट एवं सीधी-सादी उतनी ही गीएँ, अरुँ-अरुँ गाँव, धान, रत्न, जी, रत्न तथा और भी अनेकों दुर्लभ वस्तुएँ प्रदान कर सकता हूँ; अतः बताइये आपके शरीरकी पुष्टिके लिये मैं क्या दूँ?'

श्रियोंने कहा—महाराज! राजाका दिया हुआ दान

ऊपरमें मधुके समान मोटा जान पड़ता है; किन्तु परिणाममें यह विषके समान हो जाता है। इस बातको जानने हुए भी आप क्यों हमलोगोंको प्रलोभनमें डाल रहे हैं? ब्राह्मणोंका शरीर देवताओंका निजामस्थान है। उसमें तमो देवता विद्यमान रहते हैं। यदि ब्राह्मण तपस्यामें शुद्ध एवं मंगुष्ट रहता है तो वह सम्पूर्ण देवताओंको प्रान्न करता है। ब्राह्मण दिनभरमें जितना तप मंथ्र करता है, उसको राजाका प्रतिग्रह यनको दण्ड करनेवाले दावानलकी भाँति एक क्षणमें नष्ट कर डालता है। इगलिये इस दानके साथ ही आप मुचलते रहें। जिन्हें इन सब वस्तुओंकी आवश्यकता हो अथवा जो इनके लिये आपसे याचना करें उन्हीं लोगोंको दान दीजिये।

यह बहकर ये दूसरे मार्गमें आहारकी गोज करने हुए यन्में चले गये। तदनन्तर, राजाको प्रेरणामें उनसे मन्त्रों वचनों आये और उन्होंने गूतरके फल तोड़कर उन्हें देवता विचार किया। मन्त्रियोंने उन फलोंके भीतर गोतेके टुकड़े भर दिये और सबको मृत्योंके हवाले किया। भूयण उन फलोंको देनेके लिये श्रियियोंके पीछे दौड़े गये; किन्तु मार्गि अत्रिने उन सब फलोंको ब्रजदार देवकर बड़ा—'ये गूतर हमारे लेने योग्य नहीं है। हमारी मूर्द्ध मृद नहीं हुई है, हम सो नहीं रहे हैं, जागते हैं; हमें मान्य है कि इनके भीतर



मुचलं भरा हुआ है। यदि आज हम इन्हें स्वीकार कर लेंगे हैं तो परलोकमें इसका बट्ट परिणाम पीला पड़ेगा। जो

इस लोक और परलोकमें भी सुख पाना चाहते हैं, उन्हें प्रति-
ग्रहसे बचे रहना चाहिये ।'

वसिष्ठ बोले—एक निष्क (स्वर्णमुद्रा) का दान लेनेसे
हजार निष्कोंके दान लेनेका दोष लगता है । ऐसी दशामें
जो बहुत-से निष्क ग्रहण करता है उसको तो घोर पापमयी
गतिमें गिरना पड़ता है ।

कश्यपने कहा—इस पृथ्वीपर जितने धान, जौ, सुवर्ण,
पशु और स्त्रियाँ हैं वे सब किसी एक पुरुषको मिल जायें तो
भी उसे संतोष न होगा; यह सोचकर विद्वान् पुरुष अपने
मनकी तृष्णाको शान्त करे ।

भरद्वाज बोले—मनुष्यकी इच्छा सदा बढ़ती ही रहती
है, उसकी कोई सीमा नहीं है ।

गीतमने कहा—संसारमें ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो
मनुष्यकी आशाका पेट भर सके । पुरुषकी आशा समुद्रके
समान है, वह कभी भरती ही नहीं ।

विश्वामित्रने कहा—किसी वस्तुकी कामना करनेवाले
मनुष्यकी एक इच्छा जब पूरी होती है तो दूसरी नयी उत्पन्न
हो जाती है । इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके मनपर
चोट करती ही रहती है ।

जमदग्निने कहा—प्रतिग्रह न लेनेसे ही ब्राह्मण अपनी
तपस्याको सुरक्षित रख सकता है । तपस्या ही ब्राह्मणका धन
है । जो लौकिक धनके लिये लोभ करता है, उसका तपस्वी
धन नष्ट हो जाता है ।

अरुन्धती बोली—संसारमें एक पक्षके लोगोंकी राय
है कि धर्मके लिये धनका संग्रह करना चाहिये; किंतु मेरी
रायमें धन-संग्रहकी अपेक्षा तपस्याका संग्रह ही श्रेष्ठ है ।

गण्डाने कहा—मेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शक्ति-
शाली होते हुए भी जब इस भयंकर प्रतिग्रहके भयसे इतना
डरते हैं तो मेरी क्या बिसात है ? मुझे तो दुर्बल प्राणियोंकी
भांति इससे बहुत बड़ा भय लग रहा है ।

पशुसखने कहा—धर्मका पालन करनेपर जिस धनकी
प्राप्ति होती है, उससे बढ़कर कोई धन नहीं है; उस धनको
ब्राह्मण ही जानते हैं; अतः मैं भी उसी धर्ममय धनकी प्राप्ति-
का उपाय सीखनेके लिये विद्वान् ब्राह्मणोंकी सेवामें लगा हूँ ।

ऋषियोंने कहा—जिसकी प्रजा ये कष्टयुक्त फल देने-
के लिये ले आयी है तथा जो इस प्रकार फलके व्याजसे हमें
सुवर्णवान कर रहा है, उस राजाका उसके दानके साथ
ही मला हो ।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! यह कहकर उन
सुवर्णयुक्त फलोंका परित्याग करके वे समस्त व्रतधारी महर्षि

वहाँसे अग्यत्र चले गये । तब मन्त्रियोंने शंभयके पास जाकर
कहा—'महाराज ! उन फलोंको देखते ही ऋषियोंको
यह संवेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है, इसलिये
वे फलोंका परित्याग करके दूसरे मार्गसे चले गये हैं ।
सेवकोंके ऐसा कहनेपर राजा वृषार्दामिको बड़ा क्रोध हुआ
और वे उनसे अपने अपमानका बदला लेनेका विचार करके
राजधानीको लौट गये । वहाँ जाकर अत्यन्त कठोर नियमोंका
पालन करते हुए वे आहवनीय अग्निमें आभिचारिक मन्त्र
पढ़कर एक-एक आहुति डालने लगे । आहुति समाप्त होनेपर
उस अग्निसे एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई । राजा वृषार्दामिने
उसका नाम यातुधानी रक्खा । कालरात्रिके समान विकराल
रूप धारण करनेवाली वह कृत्या हाथ जोड़कर राजाके पास
उपस्थित हुई और बोली—'महाराज ! मैं आपकी किस
आज्ञाका पालन करूँ ?'

राजाने कहा—यातुधानी ! तुम यहाँसे वनमें जाओ
और वहाँ अरुन्धतीसहित सातों ऋषियोंका, उनकी दासीका
और उस दासीके पतिका भी नाम पूछकर उसका तात्पर्य
अपने मनमें धारण करो । इस प्रकार उन सबके नामोंका
अर्थ समझकर उन्हें मार डालो; उसके बाद जहाँ इच्छा हो
चली जाना ।

राजाकी यह आज्ञा पाकर यातुधानीने 'तयास्तु' कहकर
इसे स्वीकार किया और जहाँ वे महर्षि विचरा करते थे उस
वनमें चली गयी । वहाँ अग्नि आदि महर्षि फल-मूलका
आहार करते हुए घूम रहे थे । उन सबके निश्चय और कार्य
एकसे थे और वे उस वनमें विचरते हुए फल-मूलोंका संग्रह
कर रहे थे । घूमते-फिरते किसी समय उन्हें एक सुन्दर
तालाब दिखायी पड़ा जिसका जल बड़ा ही पवित्र और स्वच्छ
था । उसके चारों किनारोंपर सघन वृक्षोंकी पंक्ति शोभा
पा रही थी । पोखरेके भीतर सुन्दर कमल खिले हुए थे और
अनेकों प्रकारके पक्षी उसके जलका सेवन करते थे । उसमें
प्रवेश करनेके लिये एक ही दरवाजा था । उसके घाट और
सीढ़ियाँ बहुत सुन्दर बनी थीं तथा वहाँ काई और कीचड़का
नाम भी नहीं था । राजा वृषार्दामिकी बेजी हुई भयानक
आकारवाली यातुधानी उस तालाबकी रक्षा कर रही थी ।

तालाब देखकर वे महर्षि मृणाल लेनेके लिये पशुसखके
साथ वहाँ आये और सरोवरके तटपर उस विकराल राक्षसीको
खड़ी देखकर बोले—'तुम कौन हो और किसलिये यहाँ
अकेली खड़ी हो । यहाँ तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है ?
इस सरोवरके तटपर रहकर तुम कौन-सा कार्य सिद्ध करना
चाहती हो ?'



यातुधानीने कहा—तपस्वियो ! मैं जो कोई भी होऊँ, तुम्हें मेरा परिचय पूछनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम इतना ही जान लो कि मैं इस ताताबकी रखवाली करनेवाली हूँ। ऋषियोंने कहा—भद्र ! हम सब लोग भूखसे व्याकुल हो रहे हैं। हमारे पास खानेके लिये कुछ भी नहीं है। अतः यदि तुम आना दो तो हम सब मिलकर इस ताताबसे कुछ मृणाल उखाड़ लें।

यातुधानी बोली—ऋषियो ! एक शतंपर तुम इस ताताबसे इच्छानुसार मृणाल ले सकते हो। एक-एक आवमी आकर अपना नाम बताओ और कमलकी नास ले लो। देर करनेकी आवश्यकता नहीं है।

भीष्मजी कहते हैं—उसकी बात सुनकर महर्षि अत्रि यह समझ गये कि यह राक्षसी कृत्या है और हम सब ऋषियोंका यद्य करनेकी इच्छासे यहाँ आयी हुई है। तथापि भूतसे व्याकुल होनेके कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया— 'कल्याणी ! काम आदि शत्रुअंति व्रण करनेवालेकी अरात्रि कहते हैं और अत् (मृत्यु) से बचानेवाला अत्रि कहलाता है। इस प्रकार मैं ही अरात्रि होनेके कारण अत्रि हूँ। जबतक जीवको एकमात्र परमात्माका ज्ञान नहीं होता तबतककी अवस्था रात्रि कहलाती है। उस अज्ञानावस्थामें रहित होनेके कारण भी मैं अरात्रि एवं अत्रि कहलाता हूँ। सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अज्ञात होनेके कारण जो रात्रिके समान है

उस परमात्मतत्त्वमें मैं सदा जाग्रत रहता हूँ; अतः वह मेरे लिये अरात्रिके समान है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार ही मैं अरात्रि और अत्रि (ज्ञानी) नाम धारण करता हूँ। यही मेरे नामका तात्पर्य समझो।'

यातुधानी बोली—तेजस्वी महर्षे ! आपने जिस प्रकार अपने नामका तात्पर्य बताया है उसका मेरी समझमें आना कठिन है। अच्छा, अब आप ताताबमें उतरिये।

वसिष्ठने कहा—मेरा नाम वसिष्ठ है, सबसे धोखे होनेके कारण लोग मुझे वसिष्ठ भी कहते हैं। मैं गृहस्थ-आश्रममें वास करता हूँ, अतः वसिष्ठता (ऐश्वर्यसम्पत्ति) और वासके कारण तुम मुझे वसिष्ठ समझो।

यातुधानी बोली—मुने ! आपने जो अपने नामकी व्याख्या की है उसके लो अक्षरोंका भी उच्चारण करना कठिन है। मैं इस नामको नहीं याद रख सकती। आप जाइये, ताताबमें प्रवेश कीजिये।

करयपने कहा—यातुधानी ! करय नाम है शरीरका, जो उसका पालन करता है उसे करयप कहते हैं। मैं प्रत्येक कुल (शरीर) में अन्तर्धानीरूपसे प्रवेश करके उसको रखा करता हूँ इसलिये करयप हूँ। कु अर्थात् पुण्यीपर वम धानो वर्षा करनेवाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है, इसलिये मुझे 'कुवर्म' भी कहते हैं। मेरे देहका रंग काशके फूलकी भाँति उज्ज्वल है, अतः मैं काश्य नामसे भी प्रसिद्ध हूँ। यही मेरा नाम है, इन्ने तुम धारण करो।

यातुधानी बोली—महर्षे ! आपके नामका तात्पर्य समझना मेरे लिये बहुत कठिन है। आप भी कमलसे भरी हुई बावड़ीमें जाइये।

भरद्वाज बोले—कल्याणी ! जो मेरे पुत्र और शिष्य नहीं हैं उनका भी मैं पालन करता हूँ तथा देवता, ब्राह्मण, अपनी धर्मपत्नी तथा दान (वर्णसंकर) मनुष्योंका भी भरण-पोषण करता हूँ, इसलिये भरद्वाज नामसे प्रसिद्ध हूँ।

यातुधानी बोली—मुनिवर ! आपके नामालरका उच्चारण करनेमें भी मुझे बसोस जान पड़ता है, इसलिये मैं इसे धारण नहीं कर सकती। जाइये, आप भी इस शरोचलमें उतरिये।

शोतभने कहा—दृष्ये ! मैंने इन्द्रियमयमके द्वारा गो (पृथ्वी और स्वर्ग) का भी इमान किया है, इसलिये 'गौरम' नाम धारण करता हूँ। मैं धूमरहित अग्निके समान तेजस्वी हूँ। सबमें समान दृष्टि रखनेके कारण तुम्हारे घर और किसीके द्वारा मेरा इमान नहीं हो सकता। मेरे शरीरकी बान्ति (गो) अग्निधारकी दूर भगानेवाली (अतम) है, अतः तुम मुझे गौतम समझो।

यातुधानी बोली—महामुने ! आपके नामकी व्याख्या में नहीं समझ सकती। जाइये, पोखरेमें प्रवेश कीजिये।

विश्वामित्रने कहा—यातुधानी ! विश्वेदेव मेरे मित्र तथा मैं गौओं और सम्पूर्ण विश्वका मित्र हूँ, इसलिये संसार-विश्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध हूँ।

यातुधानी बोली—महर्षे ! आपके नामकी व्याख्याका मुझसे उच्चारण होना कठिन है। मैं इसे नहीं याद रख सकती, आप तालाबमें जाइये।

जमदग्निने कहा—कल्याणी ! मैं जम् अर्थात् देव-लोके आहवनीय अग्निसे उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिये तुम मुझे जमदग्नि नामसे विख्यात समझो।

यातुधानी बोली—मुने ! आपने जिस प्रकार अपने नामका तात्पर्य बतलाया है, उसको समझना मेरे लिये हुत कठिन है। अब आप सरोवरमें प्रवेश कीजिये।

अरुन्धतीने कहा—यातुधानी ! मैं अरु अर्थात् पर्वत, ध्वी और झूलोकको अपनी शक्तिसे धारण करती हूँ। अपने वामीसे कमी दूर नहीं रहती और उनके मनके अनुसार चलती हूँ, इसलिये मेरा नाम अरुन्धती है।

यातुधानी बोली—देवि ! आपने जो अपने नामकी व्याख्या की है उसके एक अक्षरका भी उच्चारण मेरे लिये कठिन है, अतः इसे भी मैं नहीं याद रख सकती। आप तालाबमें प्रवेश कीजिये।

गण्डाने कहा—यातुधानी ! गण्डिधातुसे गण्डिशब्दकी संहिता होती है, यह मुखके एक देश—कपोलका वाचक है। मेरा कपोल (गण्ड) ऊँचा है, इसलिये लोग मुझे गण्डा कहते हैं।

यातुधानी बोली—तुम्हारे नामकी व्याख्याका भी उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है। अतः इसको याद रखना असम्भव है। जाओ तुम भी बावड़ीमें उतरों।

पशुसखने कहा—आगसे पैदा हुई कृत्ये ! मैं पशुओंको प्रसन्न रखता हूँ और उनका प्रिय सखा हूँ; इस गुणके अनुसार मेरा नाम पशुसख है।

यातुधानी बोली—तुमने जो अपने नामकी व्याख्या की है उसके अक्षरोंका उच्चारण करना भी मेरे लिये कष्टप्रद है अतः इसको याद नहीं रख सकती; अब तुम भी पोखरेमें जाओ।

इन ऋषियोंके साथ शुनःसख नामधारी एक संन्यासी भी था, उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया—यातुधानी ! इन ऋषियोंने जिस प्रकार अपना नाम बताया है, उस तरह मैं नहीं बता सकता। तुम मेरा नाम शुनःसखसख (धर्मके मित्रभूत मुनियोंका मित्र) समझो।

यातुधानी बोली—विप्रवर ! आपने संदिग्ध वाणीमें अपना नाम बताया है अतः अब फिर स्पष्टरूपसे अपने नामकी व्याख्या कीजिये।

शुनःसखने कहा—मैंने एक बार अपना नाम बता दिया, फिर भी तुमने उसे ध्यानसे नहीं सुना है इसलिये तो, मेरे इस त्रिदण्डकी मार खाकर अभी भस्म हो जाओ।

यह कहकर उस संन्यासीने त्रिदण्डके समान अपने त्रिदण्डसे ऐसा हाथ जमाया कि वह यातुधानी पृथ्वीपर गिर पड़ी और तुरंत भस्म हो गयी। इस प्रकार शुनःसखने उस महाबलवती राक्षसीका वध करके त्रिदण्डको पृथ्वीपर रख दिया और स्वयं भी वहीं घासपर बैठ गया। तदनन्तर, वे सभी महर्षि इच्छानुसार फूल और मृणाल लेकर बड़ी प्रसन्नताके साथ तालाबसे बाहर निकले और बहुत परिश्रम करके उन्होंने मृणालोंके अलग-अलग बोके बाँधे। इसके बाद उन्हें किनारेपर ही रखकर वे बावड़ीके जलसे तर्पण करने लगे। थोड़ी देर बाद जब पानीसे बाहर आये तो उन्हें अपने रखे हुए मृणाल नहीं दिखायी पड़े। तब सभी एक स्वरसे बोल उठे—'अरे ! हम सब लोग भूखसे व्याकुल थे और अब आहार ग्रहण करना चाहते थे, ऐसे समयमें किस निर्दयीने आकर हमारे मृणाल चुरा लिये ?' जब कुछ भी पता न चला तो सबने अपनी सफाई देनेके लिये शपथ खानेका निश्चय किया। उस समय सबके-सब भूखसे विकल और अत्यन्त थके-माँदे थे; अतः उन्होंने शपथ खाना आरम्भ कर दिया। सबसे पहले अत्रि बोले—'जिसने इन मृणालोंकी चोरी की हो, उसे गायको लात मारने, सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब करने और अनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप लगे।'

वसिष्ठ बोले—जिसने मृणाल चुराये हों उसे निषिद्ध समयमें वेद पढ़ने, कुत्ते लेकर शिकार खेलने, संन्यासी होकर मनमाना बर्ताव करने, शरणागतको मारने, अपनी कन्या बेचकर जीविका चलाने तथा किसानके धन छीन लेनेका पाप लगे।

कश्यपने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो उसको सब जगह सब तरहकी बातें कहने, दूसरोंकी धरोहर हड़प लेने, झूठी गवाही देने, अपात्रको दान देने और दिनमें स्त्री-समागम करनेका दोष लगे।

भरद्वाज बोले—जिसने मृणाल चुराये हों उस निर्दयीको स्त्री, बन्धु-बान्धव और गौओंके साथ अधर्म करने, ब्राह्मणको विवादमें परास्त करने, उपाध्याय (गुरु) को नीचे बैठानेकर उनसे ऋग्वेद और यजुर्वेदका अध्ययन करने और घात-फूसकी आगमें आहुति डालनेका पाप लगे।

जमदग्नि बोले—जिसने मृगालोका अपहरण किया हो उसे पानीमें मलम्याग, गीकी हत्या, गीके साथ द्रोह, बिना शत्रुकालके मयून और सबके साथ द्वेष करने, स्त्रीकी कमाई-पर जीविका चलाने, भाई-बन्धुओंसे द्वेष रखने, सबमे वंद्य बंधने और एक दूसरेके घर अतिथि होनेका दोष लगे।

गोतमने कहा—जिसने मृगालोकी चोरी की हो यह वेदोंको पढ़कर उन्हें भून जाने, तीनों अग्निषोंका परिषयाग करने और सोमरस बेचनेके पापका भागी हो तथा एक ही रूपवाले गाँवमें निवास करनेवाले और गृहकी पत्नीसे संसर्ग रखनेवाले ब्राह्मणको जो लोक मिलता है वही उसे भी मिले।

विश्वामित्रने कहा—जो इन मृगालोको चुरा ले गया हो उसे वही पाप लगे जो पुत्रके जाँते-जी उसके मता-पिता आदि पोष्य वर्गका दूसरोके द्वारा पालन होनेपर लगता है। उसका कहीं ठिकाना न लगे, उसके घर बहुत-से पुत्र हो, वह अपवित्र, वेदको मिय्या माननेवाला, धनका धमंड करनेवाला, किसान, दूसरोमे डाह रखनेवाला, वर्षाकानमें परदेशकी यात्रा करनेवाला, वेतन लेकर काम करनेवाला, राजाका पुरोहित और यज्ञके अनधिकारीसे यज्ञ करानेवाला होवे।

अहन्धती बोली—जिसने मृगालोकी चोरी की हो वह स्त्री सदा अपनी सासको अपमानित करने. स्वामीका दिल दुलाने, अकेले स्वादिष्ट भोजन करने, घरमे रहकर बन्धु-बान्धवोंका अनादर करने, नामको सत् खाने, अपनी योनि कर्त्तकित करने और (ब्राह्मणों होकर अत्रिपत्यभाववाले) घोर पुत्रकी जननी होनेके पापकी भागिनी हो।

गण्डा बोली—जिस स्त्रीने मृगालोकी चोरी की हो उसे भूठ बोलने, बन्धुओंके साथ विरोध करने, कन्या बेचने, रसोई बनाकर अकेले भोजन करने और व्यवसायिणी होनेका पाप लगे।

पशुसख बोला—जिसने मृगालोकी चोरी की हो वह दासीके गर्भमें जन्म ले, संतानहीन और दरिद्र रहे तथा उसे देवताओंको नमस्कार न करनेका दोष लगे।

शुनःसखने कहा—जिसने इन मृगालोंको चुराया हो वह यजुर्वेदके ज्ञाता ऋत्विज अथवा सामवेदके ज्ञाता बृह-घारीकी बन्धादान देनेका फल प्राप्त करे और अथर्ववेदका अध्ययन समाप्त करके विधिवत् स्नान करनेके पुण्यका भागी हो।

संन्यामोंके बाँ बटनेपर सत्प्राप्तियोंने कहा—शुनःसख ! तुमने जो शपथ की है यह तो ब्राह्मणोंको अमोघ ही है। अतः जान पड़ता है हमारे मृगालोंकी चोरी तुमने ही की है।

शुनःसखने कहा—सुनिबरो ! आपरा बहना ठीक है। वास्तवमे मृगालोकी चोरी मैंने ही की है। जब आप-सोय तर्पण कर रहे थे उसी समय आपकी दृष्टि बचाकर मैंने इन्हें अग्न्यव रखकर छिपा दिया था। दैतिये, आपने मृगाल ये हैं, मैंने आपनोगोकी परीक्षाके लिये ही ऐसा किया था। आप मुझे संन्यासी नहीं, इन्द्र समझें। आपनोगोंकी रसा करनेके उद्देश्यमे ही मैं यहाँ आया था। राजा युपर्न-दमिकी भेजी हुई अग्न्यव श्रुतमं करनेवाली यानुधानी द्वारा आपलोगोंका वध करनेकी इच्छामे यहाँ आया था। अग्निमे इसका आभिर्भाव हुआ था। यह पापिनी बड़ी दुष्ट स्वभाव-वाली थी। यह आपको अवश्य मार डालती, इसीमे यहाँ उपस्थित होकर मैंने इस राक्षसीका वध कर खाना है। तपोधनो ! आपलोगोंने तोमका परिषयाग करनेके कारण अक्षय लोकोपर अधिकार-प्राप्त किया है। ये लोक समस्त कामनाओंके पूर्ण करनेवाले हैं। अब आप यहीने उल्टार यहाँ चलिये।

भोष्मजी कहते हैं—गुधिष्टिर ! इन्द्रकी बात सुनकर महर्षियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने 'तयाम्नु' बटकर देवराजकी आज्ञा स्वीकार की और सबके-सब उनके साथ स्वर्गको चले गये। इस प्रकार उन मरुगामाओंने अग्न्यव भूले होनेपर भी तोम नहीं किया, इसीसे उन्हें स्वर्गकी प्राप्ति हुई। अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रत्येक अवसरयामें तोमका परिषयाग करे, यही सबसे बड़ा धर्म है।

ब्रह्मसर तीर्थमें अगस्त्यजीके कमलकी चोरी होनेपर ब्रह्मर्षियों और राजर्षियोंकी

धर्मोपदेशपूर्ण शपथ

भोष्मजी कहते हैं—गुधिष्टिर ! प्राचीन कालमे राजर्षियों और ब्रह्मर्षियोंने तीर्थयात्रा करते समय मृगालकी चोरीमे ही लेकर आपसमे जो शपथ लायी थी, वह पुरातन

इतिहास में इन्हें सुना रहा है, सुनो—परिषय दिगमने प्रसिद्ध होने के उपरान्तने कुछ ऋषियों और राजाओंने एकत्रित होकर इन्होंने मन्त्र की वि 'हय समान धूमक'के

पुण्यतीर्थोंकी यात्रा करें। हममेंसे सभी लोगोंके मनमें इस बातकी इच्छा है, अतः सब साथ ही चलें।' ऐसा निश्चय करके शुक्र, अङ्गिरा, कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, वसिष्ठ, कश्यप, गोतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालव, अष्टक, भरद्वाज, अरुन्धती देवी, वालखिल्य ऋषि तथा शिवि, दिलीप, नहुष, अम्बरीष, ययाति, धुन्धुमार और पुरु आदि राजा देवराज इन्द्रको आगे करके सब तीर्थोंमें भ्रमण करने लगे। धूमते-धूमते माघकी पूर्णिमाको वे पवित्र जलवाली कौशिकी नदीके तटपर जा पहुँचे और सबने वहाँ स्नान किया। इस प्रकार अनेकों तीर्थोंमें स्नान करके निष्पाप होकर वे सब लोग अत्यन्त पवित्र ब्रह्मसर (पुष्कर) नामक तीर्थमें गये, वहाँ ब्रह्मजीके सरोवरमें स्नान करके उन अग्निके समान तेजस्वी ऋषियों और राजापरियोंके कमलके पुष्पोंका भोजन किया। तत्पश्चात् कुछ ब्राह्मण मृणाल खोदने लगे और कुछ कमलोंका संग्रह करने लगे। अगस्त्य ऋषिने भी कुछ कमल उखाड़कर किनारे पर रख दिये थे, किंतु पोखरेसे निकलनेपर सबने देखा कि अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी हो गयी है। उस समय अगस्त्यजीने सम्पूर्ण ऋषियोंसे पूछा—'मैरा कमल किसने चुरा लिया?' तब सभी महर्षि घबरा उठे और कहने लगे—'मुनिवर! हमलोगोंने आपके कमल नहीं चुराये हैं। इस बातकी सच्चाईके लिये हम कठोर शपथ खा सकते हैं—ऐसा निश्चय करके उन महर्षियों और राजाओंने अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ धर्मकी ओर दृष्टि रखते हुए क्रमशः शपथ खाना आरम्भ किया।

भृगु बोले—मुने! जिसने आपके कमलकी चोरी की हो उसे गाली सुनकर बदलेमें गाली देने और मार खाकर मारनेका पाप लगे।

वसिष्ठ बोले—जिसने आपके कमल चुराये हों वह स्वाध्यायसे विमुक्त हो जाय, कुत्ता साय लेकर शिकार खेले और गाँव-गाँव भौल माँगता फिरे।

कश्यप बोले—जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह सब जगह सब तरहकी वस्तुओंकी खरीद-विक्री करे। किसीकी घरोंपर हड़प लेनेका लोभ करे और झूठी गवाही दे।

गोतम बोले—जिसने आपके कमलकी चोरी की हो वह अहंकारी, बेईमान और अयोग्यका साथ करनेवाला, सेतिहर और ईर्ष्यायुक्त होकर जीवन व्यतीत करे।

अङ्गिरा बोले—जो आपका कमल ले गया हो वह अपवित्र, वेदको मिथ्या बतानेवाला, कुत्ते लेकर शिकार खेलनेवाला, ब्रह्महत्याका और अपने पापोंका प्रायश्चित्त न करनेवाला हो।

धुन्धुमार बोले—जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो उसे मित्रोंका उपकार न मानने, शूद्रजातिकी स्त्रीसे संतान उत्पन्न करने और अकेले ही स्वादिष्ठ भोजन करनेका पाप लगे।

पुरु बोले—जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह चिकित्साका व्यवसाय (वैद्य या डाक्टरका पेशा) करे, स्त्रीकी कमायी खाप तथा ससुरालके धनपर गुजारा करे।

दिलीप बोले—एक कुएँवाले गाँवमें रहकर शूद्रजातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणकी मृत्युके पश्चात् जिन दुःखदायी लोकोंमें जाना पड़ता है वे ही लोक उस मनुष्यको भी मिलें जो आपके कमल चुराकर ले गया हो।

शुक्र बोले—जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो उसे दिनमें मैथुन और राजाकी चाकरी करनेका पाप लगे।

जमदग्नि बोले—जिसने आपके कमल लिये हों वह निषिद्ध कालमें अध्ययन करे, मित्रको ही श्राद्धमें जिमावे तथा स्वयं भी शूद्रके श्राद्धमें भोजन करे।

शिवि बोले—जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह अग्निहोव किये बिना ही मर जाय, यज्ञमें विघ्न डाले और तपस्वियोंके साथ विरोध करे।

ययाति बोले—जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो वह व्रतधारी होकर भी ऋतुकालके अतिरिक्त समयमें स्त्री-समागम और वेदोंका खण्डन करे।

नहुष बोले—जिसने आपके कमलोंका अपहरण किया हो वह संग्यासी होकर भी घरमें रहे, यज्ञकी दीक्षा लेकर भी मनमाना बर्ताव करे और वेतन लेकर विद्या पढ़ावे।

अम्बरीष बोले—जो आपका कमल ले गया हो वह नृशंस हो; स्त्रियों, बन्धु-बान्धवों और गौओंके प्रति अपने धर्मका पालन न करे तथा ब्रह्महत्याके पापका भागी हो।

नारदजी बोले—जिसने आपके कमलोंका अपहरण किया हो वह देहरूपी गृहको ही आत्मा समझे, मर्यादाका उल्लङ्घन करके शास्त्र पढ़े, उलटे-सीधे स्वरसे वेदमन्त्रका उच्चारण करे और गुरुजनोंका अपमान करनेवाला हो।

नाभाग बोले—जिसने आपके कमल चुराये हों वह सदा झूठ बोले, संतोंके साथ विरोध करे और कीमत लेकर कन्या बेचे।

कवि बोले—जिसने आपका कमल लिया हो वह गौको लात मारने, सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब करने और शरणागतको त्याग देनेके पापका भागी हो।

विश्वामित्र बोले—जो आपका कमल उठा ले गया हो वह राजाका पुरोहित और अनधिकारीका यज्ञ करानेवाला

हो तथा सखीदे हुए गुलामको अपने मातृककी खेतोंमें हानि पहुँचानेसे जो डोप सगता है वही उसे भी सगे।

पर्वत बोले—जितने आपका कमल घुराया हो वह गाँवका मुखिया हो, गधेकी सवारोपर चले और पेट भरनेके लिये कुत्तोंकी साथ लेकर शिकार खेले।

भरद्वाज बोले—जितने आपके कमलोंकी घोरी को हो उस पापीको निन्देयी और असत्यवादी मनुष्योंमें रहनेवाला साटा-का-सारा पाप सगे।

अष्टक बोले—जितने आपका कमल घुराया हो वह राजा मन्दबुद्धि, स्वेच्छाचारी और पापी होकर अधर्मपूर्वक पृथ्वीका राज्य करे।

गालव बोले—जो आपका कमल घुरा से गया हो वह महापातकियोंसे भी बड़कर निन्दनीय, अपने बन्धुभोजन अपकार करनेवाला तथा दान देकर अपने ही मुँहसे जसका बखान करनेवाला हो।

अरुण्यती बोली—जिस स्त्रोने आपका कमल लिया हो वह अपनी सासकी निन्दा करे, स्वामोसे हठी रहे और अकेली स्वाविष्ट भोजन करे।

वालखिल्य बोले—जो आपका कमल से गया हो वह अपनी जीविकाके लिये गाँवके दरयाजपर एक परसे लड़ा रहे और धर्मको जानते हुए भी उसका परित्याग कर दे।

शुनःसख बोले—जो द्विज होकर भी सखे और शाम-को अग्निहोत्रकी अवहेलना करके मुखपूर्वक सोता हो तथा संन्यासी होकर भी मनमाना बर्ताव करता हो ऐसे मनुष्यको जो पाप सगता है वही आपका कमल घुरानेवालेको सगे।

सुरभी बोली—जिस गीने आपके कमलोंको चोरी को हो उसका पैर वालोंकी रस्सीसे बाँधा जाय और उसे दूतारा बछड़ा दिलाकर काँसके चतैनमें बुहा जाय।

भीष्मजी कहते हैं—सृष्टिपिटर ! इस प्रकार जब सब लोग माना प्रकारकी शपथें कर चुके तो देवराज इन्द्र बहुत प्रसन्न होकर मुनिवर अगस्त्यजीके सामने प्रष्ट हुए। उन्होंने मुनिकी ओर इष्टिपात करके कहा—'ब्रह्मन् ! जो आपका कमल से गया हो वह पञ्चवैदेके शाता श्रुतिवजको धपवा सामवेदेके विद्वान् ब्रह्मचारीकी कन्या वैनेका फल प्राप्त करे तथा वह अधर्मवेदेका अध्ययन समाप्त करके इनामक बने। यही नहीं, यह सम्पूर्ण वैदोंका श्वाध्यायी, पुष्यगीत और धार्मिक होकर ब्रह्माजीके लोकमें गमन करे।'

अगस्त्य बोले—इन्द्र ! भादो को तप्य को है वह तो आगोवर्षि रूप है; अतः आपकी धेरे कमल लिये है. रूपभा उन्हें वापस कीजिये, यही शातान धर्म है।

इन्द्रने कहा—भगवन् ! मैं तोभके कारण मरू, धर्म गुनकेकी इच्छासे ही ये कमल उठा लिये थे, अतः आपको मुझपर बोध नहीं करना चाहिये। आज मैं आपकीगोके भुँदो उभ आर्यं सनातन धर्मका भवन विभा है जो विद्य, भविकारी, अनामय और संतार-सागरतो पार उतारनेके लिये पुनके साधन है। इसी धार्मिक भूतियोंका उत्कर्ष सिद्ध होता है। अथवा, अब आप यह कथार सीजिये और देर अत्रराध शशा कीजिये।



इन्द्रके ऐसा कहनेपर धर्माध्य मुनिके प्रसन्नतापूर्वक वा कमल से लिया। मरुगालर, उन सब शोभने करके उल्टे होने हुए पुनः तीर्थयात्रा आरम्भ की और पुनः-पुनः-पुनः जाकर गीने लगाये। जो प्रत्येक वर्षके प्रसन्नता इन्द्र की-से धार्मिकता पाठ करता है उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तथा वह धिन्ना और धारण करके कलकला करती होना है। जो श्रुतिवैदिकान् मुनिके इन्द्र उभरकर उभरकर करता है वह श्रुतिवैदिकान् मुनिके इन्द्र उभरकर उभरकर करता है।

छत्र और उपानह दान करनेके विषयमें सूर्य और जमदग्नि मुनिका संवाद

युधिष्ठिरने पूछा—दादाजी ! छाता और जूता दान करनेकी प्रथा किसने चलायी है ? मैं देखता हूँ अनेकों पुण्य अवसरोंपर इनका दान किया जाता है, अतः इस विषयका पर्याय वर्णन मुझे इच्छा हो रही है।

श्रीष्मजीने कहा—राजन् ! छाता और उपानह (जूते) की उत्पत्ति तथा उनके प्रचारकी वार्ता मैं विस्तारके साथ ब्रता रहा हूँ, सुनो—इन दोनों वस्तुओंका दान किम प्रकार अक्षय होता है तथा ये किस प्रकार पुण्यकी प्राप्ति करानेवाली मानी गयी हैं ? इसकी भी चर्चा करूँगा। इस विषयमें जमदग्नि और भगवान् सूर्यका संवाद प्रसिद्ध है। पूर्वकालकी बात है, एक दिन भृगुनन्दन जमदग्निजी धनुष चलानेकी क्रीड़ा कर रहे थे। वे बारबार धनुषपर वाण रखकर उन्हें फेंकते और उनकी पत्नी रेणुका उन तेजस्वी वाणोंको ला-लाकर दिया करती थी। इस प्रकार खेलते-खेलते दोपहर हो गया। मुनिने पुनः अपने वाणोंको दूर फेंककर रेणुकासे कहा—‘प्रिये ! जाओ मेरे धनुषसे छूटे हुए इन वाणोंको भटपट उठा लाओ, मैं फिर इन्हें धनुषपर रखकर चलाऊँगा।’ आज्ञा पाकर रेणुका चल दी। सूर्यकी कड़ी धूपसे उसका मस्तक गरम हो उठा, तपी हुई भूमिपर उसके पैर जलने लगे; अतः वह एक वृक्षकी छायामें जाकर खड़ी हो गयी। किन्तु उसे स्वामीके शापका डर लगा हुआ था, इसलिये वहाँ घड़ीभरसे अधिक न ठहर सकी, पुनः वाण लेनेके लिये आगे बढ़ गयी। जब वाण लेकर लौटी तो बहुत खिन्न हो रही थी। परंकि जलनेसे जो दुःख होता था उसको किसी तरह सहती और भयसे यर-यर कांपती हुई वह पतिके पास आयी। उस समय महर्षि कुपित होकर बारबार पूछने लगे—‘रेणुके ! तुम्हारे आनेमें इतनी देर क्यों हुई?’

रेणुका बोली—तपोधन ! मेरा सिर तप गया, परंकि जलन होने लगी, सूर्यके प्रचण्ड तेजसे आगे बढ़नेका साहस न हुआ, इसलिये थोड़ी देरतक वृक्षकी छायामें खड़ी होकर विथाम लेने लगी थी। यही कारण है कि आपकी आज्ञाका पालन करनेमें विलम्ब हुआ, अतः आप मुझपर क्रोध न करें।

जमदग्निने कहा—प्रिये ! जिसने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है उस प्रचण्ड सूर्यको आज मैं अपने वाणोंसे मार गिराऊँगा।

श्रीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! ऐसा कहकर महर्षि जमदग्निने अपने दिव्य धनुषकी टंकार फैलायी और बहुत-से वाण हाथमें लेकर वे सूर्यकी ओर मुंह करके खड़े हो गये। उन्हें मारके निको कर देने के लिये वे सूर्यको मारने लगे।



उनके पास आये और बोले—‘ब्रह्मन् ! सूर्यने आपका क्या अपराध किया है ? वे आकाशमें स्थित होकर अपनी किरणोंद्वारा वसुधाका रस खींचते हैं और बरसातमें पुनः उसे बरसा देते हैं। उस वृष्टिसे मनुष्योंको सुख देनेवाला अन्न पैदा होता है। अन्न ही मनुष्योंके प्राण हैं—यह बात वेदमें भी बताया गया है। अपने किरणजालसे मण्डित भगवान् सूर्य सातों द्वीपकी पृथ्वीको वर्षाके जलसे आप्लावित करते हैं, उसीसे नाना प्रकारके अन्न, फल, फूल और घास-पात आदि उत्पन्न होते हैं। जातकर्म, व्रत, उपनयन, विवाह, गो-दान, शास्त्रीय दान, संयोग और धन-संग्रह आदि सारे कार्य अन्नसे ही सम्पन्न होते हैं, इस बातको आप भी जानते हैं। भला, सूर्यको मार गिरानेसे आपको क्या लाभ होगा ? अतएव मैं प्रार्थनापूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ (कृपया सूर्यको नष्ट करनेका संकल्प छोड़ दीजिये)।’

सूर्यदेवके यों प्रार्थना करनेपर भी अग्निके समान तेजस्वी जमदग्नि मुनिका क्रोध शान्त नहीं हुआ। वे कहने लगे—‘मैं ज्ञानदृष्टिसे पहचान गया हूँ, तुम्हीं सूर्य हो, अतः आज दण्ड देकर तुम्हें अवश्य ही विनय सिखाऊँगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने वाणोंसे तम्हारे शरीरके

सूर्यने कहा—शुद्ध! आप धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ हैं, अवश्य ही मेरे शरीरके टुकड़े कर सकते हैं। यद्यपि मैं आपका अपराधी हूँ तो भी इस समय आपकी शरणमें आया हूँ—ऐसा सतमबर मेरी रक्षा कीजिये।

यह सुनकर महर्षि जमदग्नि हंस पदों और कहने लगे— 'सूर्यदेव! अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि मेरी शरणमें आ गये हो। जो शरणमें आये हुएको मारता है उसे गुरुपत्नीगमन, ब्रह्महत्या और मदिगपान का पाप लगता है। तात! इस समय तुम्हारे द्वारा जो अपराध हुआ है उसका समाधान सोचो (अर्थात् तुम्हारी किरणोंके तापसे मनुष्योंकी रक्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बतलाओ)।' यह कहकर जमदग्नि भूमि चुप हो गये। तब सूर्यने उन्हें छत्र और उपानह देते हुए कहा—'महर्षे! यह छत्र मेरी किरणोंका निवारण करके मस्तककी रक्षा करेगा और चमड़ेके बने हुए ये एक जोड़े जूते आपके पैरोंको जलनेसे बचावेंगे। आप इन्हें स्वीकार कीजिये। आजते संसारमें प्रत्येक पुण्यके अवसरपर छाता और जूतोंका दान प्रचलित हो जायगा तथा इमका फल भी अश्रय होगा।'



भीष्मजी कहते हैं—सुधित्ठिर! इस प्रकार सबसे पहले भगवान् सूर्यने ही छाता लगाने और जूते पहननेकी प्रथा जारी की है। इन वस्तुओंका दान तीनों लोकोंमें पवित्र माना गया है। जिसके पैर जल रहे हों ऐसे स्नातक ब्राह्मणको

जो जूते दान करता है वह शरीरत्यागके परवान् देवयन्त्रिन लोकोमें जाता है और बड़ी प्रसन्नताके साथ गोपोंमें निवास करता है। भरतश्रेष्ठ! तुम्हारे प्रत्येक अनुभार सेने यह छत्र और उपानह दान करनेका पूरा-पूरा फल बतलाना है।

गृहस्थ-धर्मके विषयमें पृथ्वी और श्रोत्रकृष्णका संवाद तथा पुष्य, धूप और दीपके दान एवं देवता आदिको वलि देनेका माहात्म्य बतानेके लिये वलि-गुरु-संवादका उल्लेख

सुधित्ठिरने कहा—दादाजी! अब आप गृहस्थ-आश्रमके मन्वृषण धर्मोंका वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—बेटा! इस विषयमें मैं तुम्हें भगवान् श्रीकृष्ण और पृथ्वीका संवादरूप प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ।

श्रोत्रकृष्णने पूछा—बसुन्धरे! मनुष्यों या मेरे-जैसे किसी दूसरे मनुष्योंके गार्हस्थ्य-धर्मका आश्रय लेकर किस कामका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये? क्या करनेसे गृहस्थको सफलता मिलती है?

पृथ्वीने कहा—माधव! गृहस्थ पुरुषको देवता, पितर, ऋषि और मनुष्योंका सदा ही पूजन एवं सत्कार करना चाहिये। अब मैं इसकी विधि बताने लूँ, सुनिये—प्रतिदिन धान-होमके द्वारा देवताओंका, (श्राद्ध-तर्पण करके पितरोंका), अतिथि-सत्कारके द्वारा मनुष्योंका और वेदका स्वाध्याय

करके पूजनीय ऋषि-महर्षियोंका पूजन करना चाहिये। स्वाध्यायमें ऋषियोंकी बड़ी प्रशंसा होती है। निरुपनि भोजनके पहले ही अग्निरोत्र एवं वलिबर्गदेव कर्म करना आवश्यक है। ऐसा करनेमें देवता भी संतुष्ट होते हैं। पितरोंकी प्रशंसाके लिये प्रतिदिन अन्न, जल, दूध अथवा फल-मूलके द्वारा श्राद्ध करना उचित है। मित्र अन्न (मैदा हूई रसोई) सेने अन्न लेकर उनमें द्वारा विधिपूर्वक वलिबर्गदेव करना चाहिये। इसके बाद ब्राह्मणकी निशा दे। यदि ब्राह्मण न मिल सके तो अन्नसे घोंडा-भा अथवा निवारण कर उसका अग्निमें होम कर दे। जिस दिन पितरोंका श्राद्ध करनेकी इच्छा हो, उस दिन पहले श्राद्धकी ही निशा पूरी करे। उसके बाद पितृतर्पण और वलिबर्गदेव करके ब्राह्मणकी सत्कारपूर्वक भोजन करावे। फिर विशेष अन्नके



द्वारा अतिथियोंको भी संतुष्ट करे, किंतु भोजन देनेके पहले उनकी विधिवत् पूजा कर लेनी चाहिये। ऐसा करनेसे गृहस्थ पुरुष मनुष्योंको संतुष्ट करता है। जो नित्य अपने घरमें स्थित नहीं रहता, वह अतिथि कहलाता है। आचार्य, पिता, विश्वासपात्र मित्र और अतिथिसे सदा यह निवेदन करे कि 'अभूक वस्तु मेरे घरमें मौजूद है, उसे आप स्वीकार करें।' फिर वे जैसी आज्ञा दें, वैसा ही करे। इससे धर्मका पालन होता है। गृहस्थ पुरुषको सदा यज्ञशिष्ट अन्नका ही भोजन करना चाहिये। राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुरु और स्वशर—ये यदि एक वर्षके बाद आवें तो मधुपर्कसे इनकी पूजा करनी चाहिये। कुत्तों, चाण्डालों और पक्षियोंके लिये भूमिपर अन्न रख देना चाहिये। यह वैश्वदेव नामक कर्म है। प्रातःकाल और सायंकालमें इसका अनुष्ठान किया जाता है। जो मनुष्य दीपदृष्टिका परित्याग करके इन गृहस्थोचित धर्मोंका पालन करता है, उसे इस लोकमें ऋषि-महर्षियोंका वरदान प्राप्त होता है और मृत्युके पश्चात् वह पुण्यलोकमें सम्मानित होता है।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! पृथ्वीदेवीके ये वचन सुनकर प्रतापी भगवान् श्रीकृष्णने उन्हींके अनुसार गृहस्थ-धर्मोंका विधिवत् पालन किया। तुम्हें भी सदा इनका अनुष्ठान करना चाहिये।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! दीपदान किस तरह किया जाता है? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? और इसका फल क्या है?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! इस विषयमें शुक और बलिके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है।

बलिने पूछा—विप्रवर! फूल, धूप और दीप-दान करनेका क्या फल है? यह बतानेकी कृपा कीजिये।

शुकने कहा—राजन्! पहले तपस्याकी उत्पत्ति हुई है, उसके बाद धर्मकी। इसी बीचमें लता और ओषधियाँ उत्पन्न हुईं। अनेकों प्रकारकी सोमलता, अमृत, विष तथा दूसरे-दूसरे तृणोंका प्रादुर्भाव हुआ। अमृत वह है, जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है—तत्काल तृप्ति हो जाती है और विष वह है जो अपनी गन्धसे चित्तमें ग्लानि पैदा करता है। अमृत मञ्जल करनेवाला है और विष अमञ्जल। अब मैं देवता, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, पितर और मनुष्योंको प्रिय लगनेवाले तथा कामिनियोंको पसंद आनेवाले फूलोंका भी वर्णन करता हूँ। फूलोंके बहुत-से वृक्ष गाँवोंमें होते हैं और बहुत-से जंगलोंमें; बहुतेरे वृक्ष वयारियोंमें लगाये जाते हैं और बहुत-से पर्वत आदिपर अपने-आप पैदा होते हैं। इन वृक्षोंमें कुछ तो कांटेदार होते हैं और कुछ बिना कांटोंके। इन सबमें रूप, रस और गन्ध विद्यमान रहते हैं। गन्ध दो प्रकारकी होती है—अच्छी और बुरी। अच्छी गन्धवाले फूल देवताओंको प्रिय होते हैं। जिन वृक्षोंमें कांटे नहीं होते उनके सफेद रंगवाले फूल ही देवतालोग अधिक पसंद करते हैं। अयववेदमें बतलाया गया है कि शत्रुओंका अनिष्ट करनेके लिये किये जानेवाले अभिचार कर्ममें लाल फूलोंवाली कड़वी और कण्टकाकीर्ण ओषधियोंका उपयोग करना चाहिये। जिन फूलोंमें कांटे अधिक हों, जिनका हाथसे स्पर्श करना कठिन जान पड़े, जिनका रंग अधिकतर लाल या काला हो तथा जिनका असर तीखा हो ऐसे फूल भूत-प्रेतोंके काम आते हैं। मनुष्योंको तो वे ही फूल प्रिय होते हैं जिनका रूप सुन्दर और रस मधुर हो तथा जो देखनेपर हृदयको आनन्ददायी जान पड़े। श्मशान अथवा जीर्ण-शीर्ण देवालयमें पैदा हुए फूलोंका पौष्टिक कर्म, विवाह तथा एकान्त विहारमें उपयोग नहीं करना चाहिये। पर्वतोंके शिखरपर उत्पन्न हुए सुन्दर और सुगन्धित पुष्पोंको धोकर शास्त्रोक्त विधिके अनुसार उन्हें देवताओंपर चढ़ाना चाहिये। देवता फूलोंकी सुगन्धसे, यक्ष और राक्षस उनके दर्शनसे, नागगण उनका भलीभाँति उपभोग करनेसे और मनुष्य उनके गन्ध, दर्शन

एवं उपभोग—तीनोंसे ही संतुष्ट होते हैं। फल चढ़ानेसे देवता तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और सिद्ध-संकल्प होनेके कारण वे मनुष्योंको मनोवाञ्छित तथा मनोरम भोग देकर उनकी भलाई करते हैं। देवताओंको यदि संतुष्ट और सम्मानित किया जाता है तो वे भी मनुष्योंको संतोष और आदर देते हैं तथा यदि उनकी अथवा एवं अवहेतना की गयी तो वे अथवा करनेवाले मोच मनुष्योंको अपनी क्रोधान्तिसे भस्म कर डालते हैं।

इसके बाद धूप-दानका फल सुनो—धूप भी अच्छे और बुरे कई तरहके होते हैं। मुख्यतः उनके तीन भेद हैं—निर्यास, सारी और कृत्रिम। इन धूपोंकी गन्ध भी अच्छी और बुरी दो प्रकारकी होती है। ये सब बातें विस्तारके साथ सुनो—वृक्षोंके रस (गोंद) को निर्यास कहते हैं, सल्लकी नामक वृक्षके सिवा अन्य वृक्षोंसे प्रकट हुए निर्यासमय धूप देवताओंको अधिक प्रिय होते हैं। उनमें भी गुग्गुल सबसे श्रेष्ठ है। जिन काष्ठोंकी आगमें जलानेपर सुगन्ध प्रकट होती है उन्हें 'सारी' धूप कहते हैं। इनमें अगुरुकी प्रधानता है। 'सारी' धूप विशेषतः यक्ष, राक्षस और नागोंको प्रिय होते हैं। देवलोय सल्लकी तथा उसी तरहके अन्य वृक्षोंकी गोंदका बना हुआ धूप पसंद करते हैं। संत्रस (राल) आदि, पार्श्वर रस (लोहवान आदि) तथा सुगन्धित काष्ठीयधियोंको मिलाकर शकर और घृतसे संयुक्त करके जो (अष्टगन्ध आदि) धूप तैयार किया जाता है, वही कृत्रिम है। मनुष्य उसका ही विशेष उपयोग करते हैं। उससे देवता-दानव आदि भी शीघ्र संतुष्ट होते हैं। इनके सिवा भोग-विलासके लिये उपयोगी और भी अनेकों प्रकारके धूप हैं जो केवल मनुष्योंके व्यवहारमें आते हैं। फूलोंकी चढ़ानेका जो फल बताया गया है वही धूप निवेदन करनेका भी है। धूप भी देवताओंकी प्रसन्नता चढ़ानेवाले हैं।

अब दीप-दानका उत्तम फल बतला रहा है। अब, किस प्रकार और कैसे दीप देने चाहिये, इन सब बातोंका वर्णन सुनो—दीपक ऊर्ध्वगामी तेज है, वह कीर्तिका विस्तार करनेवाला है, अतः दीप-दान करनेसे मनुष्यका तेज बढ़ता है। अन्धकार अन्धतामिलनामक नरकस्थ है। दक्षिणायन भी अन्धकारसे ही आच्छन्न रहता है। इसके विपरीत उत्तरायण प्रकाशमय है, इसलिये वह श्रेष्ठ माना गया है। अतः अन्धकारमय नरककी निवृत्तिके लिये दीप-दानकी प्रार्थना की गयी है। दीपककी शिला ऊर्ध्वगामिनी होती है, वह अन्धकारको दूर करनेकी बया है, इसलिये जो दीप-दान करता है उसे निरन्धय ही ऊर्ध्वगतिकी प्राप्ति होती है। देवता

तेजस्वी, क्षान्तिमान् और प्रकाश चंचलनेवाले होते हैं, अतः देवताओंके निमित्त दीप-दान दिया जाता है। दीप-दान करनेसे मनुष्यके नेत्रोंका तेज बढ़ता है और वह स्वयं भी तेजस्वी होता है। दान करनेके परवत्तु उन दीपकोंको न तो घुमावे, न उठाकर अन्यत्र से जाय और न मष्ट हो करे। दीपक चुरानेवाला मनुष्य अंधा और धोहीन होता है तथा मरनेके पीछे नरकमें पड़ता है; किंतु जो दीप-दान करता है वह स्वर्गलोकेमें दीपमाताकी भाँति प्रकाशित होता है। धीका दीपक जलाकर दान करना प्रथम धेनीका दीप-दान है। ओषधियोंके रस अर्थात् तिल, सरसो आदिके तेलसे जलाकर किया हुआ दीप-दान दूसरी धेनीका है। जो अपने शरीरकी पुष्टि चाहता हो उसे चर्बी, मेदा और हृद्दियेति निकाले हुए तेलके द्वारा कदापि नहीं दीपक जलाना चाहिये। अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको प्रतिदिन पक्षीय मरनेके पास, यनमें, देवमन्दिरमें और घोरार्होपर दीप-दान करना चाहिये। दीप-दान करनेवाला पुण्य अपने कुलको उद्दीप्त करनेवाला, शुद्धचित्त तथा शीतस्मर्य होता है और अन्तमें वह प्रकाशमय लोकमें जाता है।

अब मैं देवता, यक्ष, सर्प, मनुष्य, भूत और रासासोंको बलि समर्पण करनेसे जो लाभ होता है, उसका वर्णन करता हूँ। जो लोग अपने भोजन करनेसे पहले देवता, ब्राह्मण, अतिथि और बालकोंको भोजन नहीं कराते उन्हें अमङ्गलकारी राक्षस ही सम्भ्रमा चाहिये। अतः गृहस्थ मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह देवताओंकी पूजा करके उन्हें मस्तक मुकाकर प्रणाम करे और सर्वप्रथम उन्हींको अन्नका भाग अर्पण करे, क्योंकि देवतालोग सदा मनुष्योंकी ही हुई बलिसे स्वीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बाह्यसे आये हुए अतिथि और देवता, पितर, यक्ष, राक्षस तथा सर्प आदि गृहस्थके लिये हुए अन्नसे ही जीविका चलाते हैं और प्रसन्न होकर उस गृहस्थको आयु, यश तथा धनके द्वारा संतुष्ट करते हैं। देवताओंको जो बलि दी जाय वह बही-पुण्यकी बनी हुई परम पवित्र, सुगन्धित, वर्णनीय और फलसि सुशोभित होनी चाहिये। नागोंको पशु और उत्सवयुक्त बलि प्रिय होती है, भूतोंको गुरु मिले हुए तिमकी बलि देने चाहिये। जो मनुष्य देवता आदिको अप्रमाण देकर भोजन करता है वह उत्तम भोगसे सम्पन्न, बलवान् और धीर्यवान् होता है, इसलिये देवताओंकी पूजा करके उन्हें अप्रमाण अवयव अर्पण करना चाहिये। गृहस्थके घरकी अधिष्ठात्री देविमाँ उसके घरको सदा प्रकाशित किये रहती हैं; अतः कल्याणकारी मनुष्यको चाहिये कि भोजनका अप्रमाण देकर सदा ही उनकी पूजा किया करे।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार शुक्राचार्यने
 संग असुरराज बलिको सुनाया और मनुने सुवर्ण
 तो इसका उपदेश किया। तत्पश्चात् सुवर्णने नारदजीको
 और नारदजीने मुझे ये घूप-दीप यदि दानके अनुसार
 थे। वेदा ! इस विधिको जानकर तुम भी इसीके अनुसार
 सब काम करो।

अनशन-व्रतका माहात्म्य

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! आपने अनेक प्रकारके
 दान, शान्ति, सत्य और अहिंसा आदिका वर्णन किया, अब
 यह बताइये कि तपोबलसे बढ़कर कौन-सा बल है ? तपस्यासे
 भी यदि कोई उल्लूक साधन हो तो उसको व्याख्या कीजिये।
 भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! मनुष्य जितना तप
 करता है, उसीके अनुसार उसे उत्तम-लोक प्राप्त होते हैं;
 अतः तपसे बढ़कर कोई साधन नहीं है, किंतु मेरी रायमें सब
 प्रकारकी तपस्याओंसे अनशन-व्रत ही श्रेष्ठ है। अनशनसे
 बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। इस विषयमें भगीरथ और
 ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण
 दिया जाता है। हमने सुना है कि राजा भगीरथ देवताओंके
 लोकका उल्लङ्घन करके ऋषियोंको प्राप्त होनेवाले ब्रह्म-
 लोकमें जा पहुँचे। उन्हें देखकर ब्रह्माजीने पूछा—‘भगीरथ !
 इस लोकमें आना तो बहुत ही कठिन है, तुम कैसे आ पहुँचे ?
 मनुष्य, देवता और गन्धर्व भी बिना तपस्या किये यहाँ नहीं आ
 सकते; फिर तुम्हारा आना किस प्रकार सम्भव हुआ ?’
 भगीरथने कहा—भगवन् ! मैं ब्रह्मचर्य व्रतका पालन
 करके प्रतिदिन एक लाख स्वर्णमुद्रा ब्राह्मणोंको दान किया
 करता था; किंतु उसके फलसे मेरा यहाँ आना नहीं सम्भव
 हुआ है। मैंने एक रातमें और पाँच रातमें समाप्त होनेवाले
 यज्ञ दस-दस बार किये हैं। ग्यारह रात्रियोंमें पूर्ण होनेवाले
 यज्ञ दस-दस बार अनुष्ठान किया है तथा सौ बार ज्योतिष्टोम
 यज्ञका ग्यारह बार अनुष्ठान किया है, किंतु इन यज्ञोंके कारण
 यज्ञसे देवताओंका यज्ञ किया है, किंतु इन यज्ञोंके कारण
 भी मैं इस लोकमें नहीं आया हूँ। सौ वर्षोंतक निरन्तर गङ्गा-
 जोके तटपर रहकर मैंने जो कठोर तपस्या की और वहाँ
 हजारों खन्चरियों तथा कन्याओंका दान किया, उस पुण्यके
 प्रभावसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ। पुष्करतीर्थमें एक लाख
 बार जो ब्राह्मणोंको एक लाख घोड़े, दो लाख गौएँ तथा सोनेके
 चन्द्रहार और जाम्बूनके गहनोंसे विभूषित हुई साठ हजार
 मुन्दरी कन्याएँ दान की थीं, वह पुण्य भी मुझे इस लोकमें ले
 आनेका कारण नहीं है। गोसव नामक यज्ञका अनुष्ठान करके
 उसमें दूध देनेवाली दस अरब गौओंका दान किया; उस समय
 एक-एक ब्राह्मणको दस-दस गाँयें मिली थीं, प्रत्येक गायके
 रंगवाले बछड़े और सुवर्णमय दुग्धपात्र

भी दिये गये थे; परंतु उस यज्ञने भी मुझे यहाँतक नहीं पहुँ-
 चाया है। अनेकों बार सोमयागकी बीसा लेकर उसमें
 प्रत्येक ब्राह्मणको मैंने पहले वारकी व्याघ्री हुई दूध देनेवाली
 दस-दस गौएँ और रोहिणी जातिकी सौ-सौ गौएँ दान की हैं
 तथा इनके अतिरिक्त भी दस-दस बार लाखों दूधार गायें
 प्रदान की हैं; किंतु उस पुण्यसे भी मैं इस लोकमें नहीं आया
 हूँ। बाह्लीक देशमें उत्पन्न हुए श्वेत रंगके एक लाख घोड़ोंको
 सोनेकी मालाओंसे सजाकर ब्राह्मणोंको दान किया; किंतु
 वह पुण्य भी मुझे यहाँतक न ला सका। एक-एक यज्ञमें
 अठारह-अठारह करोड़ स्वर्णमुद्राएँ बाँटीं, पर उसके पुण्यसे
 भी यहाँ न आ सका। फिर स्वर्णहारसे विभूषित हरे रंगवाले
 सत्रह करोड़ श्यामकर्मण घोड़े, हरिसंके समान दाँतोंवाले
 स्वर्णमालामण्डित एवं विशाल शरीरवाले सत्रह हजार हार
 तथा सोनेके बने हुए दिव्य आभूषणोंसे विभूषित, स्वर्ण
 उपकरणोंसे युक्त और सजे-सजाये घोड़े जुते हुए सत्रह हार
 रथ दान किये। इनके अतिरिक्त भी जो-जो वस्तुएँ
 दक्षिणाके अङ्गरूपसे वतायी गयी हैं, उन सबको मैंने
 वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान करके दान किया था। यज्ञों
 पराक्रममें जो इनके समान प्रभावशाली थे, जिनमें
 सुवर्णके हार शोभा पा रहे थे, ऐसे हजारों राजाओं
 जीतकर मैंने ब्राह्मणोंको दक्षिणामें दे दिया (अर्थात्
 के कहनेसे विजित राजाओंको दानसे मुक्त कर अधि-
 संसारके समस्त राजाओंको परास्त कर अधि-
 करके आठ बार राजसूय यज्ञका अनुष्ठान कि-
 कोई भी यज्ञ मुझे ब्रह्मलोकतक पहुँचानेमें सम-
 मेरी दो हुई दक्षिणासे गङ्गाजीका सम्पूर्ण हार
 हो गया था, परंतु उसके कारण भी मैं इस
 सका। उस यज्ञमें मैंने प्रत्येक ब्राह्मणको
 सोनेके अलंकारोंसे विभूषित दो हजार घोड़े
 अच्छे-अच्छे गाँव दिये थे। मिताहारी, मौ-
 रहकर मैंने हिमालयपर्वतपर बहुत काल
 जिससे प्रसन्न होकर भगवान् शंकरने
 धाराको अपने मस्तकपर धारण किया।
 मुझे यहाँ लानेमें कारण नहीं है। मैंने

याग' किये, दस हजार साधक यागोंका अनुष्ठान किया, कई बार तेरह और बारह दिनोंमें समाप्त होनेवाले याग और पुण्डरीकीनामक यज्ञ पूर्ण किये; परंतु उनके फलोंसे भी यहाँतक आनेमें सफल न हो सका। इतना ही नहीं, मैंने सकेदर रंगके आठ हजार बेल भी ब्राह्मणोंको दान किये, जिनके एक-एक सौगमें सोना मड़ा हुआ था तथा अनेकों बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान करके उनमें सोने और रत्नोंकी ढेरी, रत्नमय पर्वत, धन-धान्यसे सम्पन्न हजारों गाँव और एक बारकी ध्यायो हुई सहस्रों गाँव ब्राह्मणोंको दान कीं; किंतु उनके पुण्यसे मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे द्वारा एक बार एकादशाह और दो बार द्वादशाह यज्ञोंका अनुष्ठान हुआ है। मैंने सोलह बार आर्कायण तथा अनेकों बार अश्वमेध यज्ञ किये हैं; परंतु इन यज्ञोंके फलसे भी इस लोकमें नहीं आया हूँ। चार कोसका संवा-घोड़ा एक वन, जिसके प्रत्येक वृक्षमें सोने और रत्न जड़े हुए थे, मैंने दान किया है; किंतु उसका फल भी मुझमें यहाँतक आनेमें समर्थ नहीं हुआ है। मैं तीस वर्षोंतक क्रोधरहित होकर 'तुरायण' नामक दुष्कर व्रतका पालन करता रहा, जिसमें प्रतिदिन नौ सौ गाँव ब्राह्मणोंको दान देता था। इनके अतिरिक्त रोहिणी (कपिता) जातिकी बहुत-सी दूधार गाँव तथा बहुतेरे बँल भी दान किया करता था; पर उन सब दानोंके फलसे इस लोकमें नहीं आया हूँ। मैंने तीस बार अग्निचयन, आठ बार सत्यमेध और एक सौ अट्ठाईस बार विरबिजत् यज्ञ किये हैं; किंतु उनके फलसे भी यहाँ नहीं आ सका हूँ। सरपू, बाहुका, मङ्गा और नर्मधारण्य तीर्थमें जाकर मैंने दस

सात गोदान किये हैं; परंतु उनके फल भी मुझे यहाँतक न सा सके। (केवल अनशन-व्रतके प्रभावसे मुझे इस दुर्लभ लोककी प्राप्ति हुई है)। यहाँसे इन्होंने स्वयं अनशन-व्रतका अनुष्ठान करके इसे गुप्त रक्षता था, उसके बाद गुप्ताचार्यने तपस्याके द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया; फिर उन्होंने तेजसे उस व्रतका महातन्त्र सबपर प्रकट हुआ। मैंने भी अन्तमें उसी व्रतका साधन आरम्भ किया; जब उसकी पूर्ति हुई, उस समय मेरे पास हजारों ब्राह्मण और ऋषि पधार। वे सभी मुझपर बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने प्रायश्चित्तपूर्वक आतापी 'राजन्'। तुम ब्रह्मलोकको जाओ।' इस प्रकार (मेरे अनशन-व्रतसे संतुष्ट हुए उन) हजारों ब्राह्मणोंके आशीर्वाचसे मुझे इस दुर्लभ लोकमें आनेका तीर्णार्थ प्राप्त हुआ है; इसमें आप कोई अन्वया विचार न करें। मैंने अपनी इच्छाके अनुसार विधिपूर्वक अनशन-व्रतका पालन किया है। इस समय आपने पूछा है, इसलिये ये सब बातें यथावश्यकता बतायी हैं। मेरी समझमें अनशन-व्रतसे बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। देवेवर। आपको सादर नमस्कार है, अब आप मुझपर प्रसन्न होइये।

भोष्मजी कहते हैं—यधिष्ठिर। राजा मनोरथने जब इस प्रकार कहा तो ब्रह्माजीने उनका निधिषण् आतिथ्य-सात्कार किया। इसलिये तुम भी सदा अनशन-व्रतका पालन करते हुए ब्राह्मणोंको पूजा करो; क्योंकि ब्राह्मणोंके आशीर्वाचसे इहलोक और परलोकमें सब प्रकारकी कामनाएँ सिद्ध होती हैं।

आयुको बढ़ाने और घटानेवाले शुभाशुभ कर्मोंका वर्णन

यधिष्ठिरने पूछा—पितामह! शास्त्रोंमें कहा गया है कि 'मनुष्यकी आयु सौ वर्षोंकी होती है, यह संकड़ों प्रकारकी शक्ति लेकर जन्म धारण करता है।' किंतु देखता हूँ कितने ही मनुष्य बचपनमें ही कातके गालमें चले जाते हैं; इसका क्या कारण है? किस उपायसे पुरुष अपनी पूरी आयुतक कीर्तिवन्त रहता है? क्या वजह है कि उसकी आयु कम हो जाती है? क्या करनेसे परा मिसलता है और किस कर्मके अनुष्ठानसे सशरीरकी प्राप्ति होती है? मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीरके

द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषध आदि साधनोंसे किसका आश्रय ले, जिससे उसका मत्ता हो?

भोष्मजीने कहा—यधिष्ठिर। तुम जो कुछ पूछने हो उसका उत्तर दे रहा हूँ, सुनो—सदाचारसे ही मनुष्यको आयु, सशरीर तथा इस लोक और परलोकमें कीर्तिवन्त प्राप्ति होती है। दुराचारी पुरुष, जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्करित होते हैं, इस संसारमें बढ़ी आयु नहीं पाता; अतः यदि मनुष्य अपना बचपान करना चाहता हो तो उसे सदाचारका पालन करना चाहिये। कितना ही बढ़ा पापी बच्चों न हो, सदाचार उतनी बुरी प्रवृत्तियोंके बन्ध देता है। सदाचार धर्मका और सत्कारिता सत्युपयोगका लक्षण है। साधु पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं, वही सदाचारका स्वरूप है। जो मनुष्य धर्मका आचरण करता और लोक-मन्यायके बाधोंमें तथा

१. यज्ञकर्ता पुरुष 'साम्या' नामक एक काठका डडा धुव और लगाकर फँसता है, वह जितनी दूरपर जाकर गिरता है, उतने दूरमें यज्ञकी वेदी बनायी जाती है; उस वेदीपर जो यज्ञ किया जाता है, उसे 'साम्याशेष' अथवा 'साम्याश्राव' यज्ञ कहते हैं।

रहता है, उसका दर्शन न हुआ हो तो भी मनुष्य केवल नाम चुगकर उससे प्रेम करने लगते हैं। नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और शास्त्रकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाले तथा धर्मको न जाननेवाले दुराचारी मनुष्योंकी आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य शीलहीन, धर्मकी मर्यादाको भङ्ग करनेवाले तथा दूसरे वर्णकी स्त्रियोंसे सम्पर्क रखनेवाले हैं, वे इस लोकमें अल्पायु होते और और मरनेके बाद नरकमें पड़ते हैं। सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे हीन होनेपर भी जो सवाचारी, श्रद्धालु और ईर्ष्यारहित होता है, वह सौ वर्षोंतक जीवित रहता है। जो क्रोधहीन, सत्यवादी, प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाला, बोधवृद्धिसे रहित और कपटशून्य है, उस पुरुषकी आयु सौ वर्षोंकी होती है। जो मनुष्य छेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता तथा सवा ही अशुद्ध एवं चञ्चल रहता है, उसे दीर्घायु नहीं प्राप्त होती।

प्रतिदिन ब्राह्मणहृतमें (अर्थात् सूर्योदयसे एक घंटा पहले) जागकर धर्म और अर्थके विषयमें विचार करे। फिर हाथसे उठकर शौच-स्नानके पश्चात् आचमनपूर्वक दोनों हाथ जोड़े हुए प्रातःकालकी संध्या करे। इसी प्रकार सायंकालमें भी मौन होकर संध्योपाराना करनी चाहिये। उदय, अस्त, पठन और मध्याह्नके समय सूर्यकी ओर कभी दृष्टि न डाले। जलमें भी उनकी परछाईं न देखे। ऋषिलोग प्रतिदिन संध्योपाराना करनेसे ही दीर्घजीवी हुए हैं; अतः द्विज मांसको मौन रहकर प्रातःकाल और सायंकालकी संध्या अवश्य करनी चाहिये। जो द्विज दोनों समयकी संध्या नहीं करते, उनसे धार्मिक राजा शूद्रोंके काम करावे। किसी भी वर्णके पुरुषको परायी स्त्रीसे संसर्ग नहीं करना चाहिये। परस्त्री-सेवनसे मनुष्यकी आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इसके समान आयु मष्ट करनेवाला संसारमें दूसरा कोई कार्य नहीं है। स्त्रियोंके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही हजार वर्षोंतक व्यभिचारी पुरुषोंको नरकमें रहना पड़ता है।

केरोंको संबारना, आँसुओंमें अंजन लगाना, दाँत-मुँह धोना और देवताओंकी पूजा करना—ये सब कार्य दिनके पहले-पहलमें ही करने चाहिये। मल-मूत्रकी ओर न देखे, उसपर कभी पैर न रखे। अत्यन्त सबेरे, दोपहरको और सायंकालमें कहीं बाहर न जाय। न तो अपरिचित पुरुषोंके साथ याता करे, न शूद्रके साथ और न अकेले ही। ब्राह्मण, गाय, राजा, बुद्ध, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल और बौद्ध लिये हुए मनुष्य यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जानेका मार्ग देना चाहिये। मार्गमें चलते समय परिचित ब्राह्मणों और सभी चौराहोंको बाहिनी और छोड़ना चाहिये। प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न, रात और बिरोधतः आधीरात-

के समय कभी चौराहोंपर न रहे। दूसरोंके पहने हुए बस्त्र और जूते न पहने। सवा ब्रह्मचर्यका पालन करे। पैरपर पैर न रखे। दोनों ही पक्षोंकी अमावास्या, पौर्णमासी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथिको स्त्री-समागम न करे। दूसरोंकी निन्दा, बदनामी और चुगली न करे। किसीके मर्मपर आघात न करे। क्रूरताभरी बात न बोलें। औरोंको नीचा न दिखावे। जिसके कहनेसे दूसरोंको उद्वेग होता हो, वह हल्काईसे भरी हुई बात पापलोकमें ले जानेवाली होती है; उसे कभी मुँहसे न निकाले। वचनरूपी बाण मुँहसे निकलते हैं, जिनकी चोट खाकर मनुष्य रात-दिन शोकमें पड़ा रहता है। अतः जिनसे दूसरे मनुष्यके मर्मपर आघात लगता हो, विद्वान् पुरुषको ऐसे वचनोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये। बाणोंसे बिधा हुआ और फरसेसे काटा हुआ वन पुनः अङ्कुरित हो जाता है; किंतु बुर्वचनरूपी शास्त्रसे किया हुआ भयंकर धाव कभी नहीं भरता। कर्ण, नालीक और नाराच—ये यदि शरीरमें लग जायें तो निकाले जा सकते हैं; किंतु वचनरूपी काटिका निकाला जाना असम्भव है। वह सवा हृदयमें कसकता रहता है। हीनाङ्ग (अंधे-काने आदि), अधिकाङ्ग (छाँगुर आदि), अपङ्ग, निन्वित, कुरूप, धनहीन और असत्यवादी मनुष्योंकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिये। नास्तिकता, वेदोंकी निन्दा, देवताओंके प्रति अनुचित आक्षेप, द्वेष, उद्वेगता और कठोरता—इन दुर्गुणोंका त्याग कर देना चाहिये। क्रोधमें आकर पुत्र या शिष्यके सिवा और किसीको डंडे मारना अथवा जमीनपर गिराना उचित नहीं है। हाँ, शिक्षाके लिये पुत्र और शिष्यको ताडना देना शास्त्रसम्मत है। ब्राह्मणकी निन्दासे दूर रहे। घर-घर घूमकर नक्षत्र और तिथि न बताया करे। इन सब नियमोंका पालन करनेसे मनुष्यकी आयु नहीं क्षीण होती।

मल-मूत्र त्यागने और रास्ता चलनेके बाद तथा स्वाध्याय और भोजनके पहले पैर धो लेने चाहिये। जिसपर किसीकी दूषित दृष्टि न पड़ी हो, जो जलसे धोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मण प्रशंसा करते हों—ये ही तीन वस्तुएँ देवताओंके ब्राह्मणोंके उपयोगमें लाने योग्य और पवित्र बतायी हैं। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन अग्निहोत्र करे; संन्यासियोंको भिक्षा बे और मौन रहकर नित्य ही दन्तधावन करे। सबेरे सोकर उठनेके बाद पहले माता-पिता, आचार्य तथा अन्य गुरुजनोंको प्रणाम करना चाहिये, इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। सूर्योदय होनेतक कभी न सोये; यदि किसी दिन ऐसा हो जाय तो प्रायश्चित्त करे। शास्त्रोंमें जिन काष्ठोंका दान निषिद्ध माना गया है, उन्हें काममें न ले। शास्त्रविहित काष्ठका ही दन्तधावन करे, किंतु पर्वके दिन उसे श्री त्याग दे। सवा सावधान रहकर (दिनमें) उत्तरकी ओर मंड करके ही मल-

मूत्रका त्याग करे। वन्तघावन किये बिना देवताओंकी पूजा न करे और देवपूजा किये बिना युद्ध, वृद्ध, धार्मिक तथा विद्वान् पुष्टयको छोड़कर दूसरे किसिके पास न जाय।

बुद्धिमान् मनुष्य मलिन वर्णमें मूंह न बेले। गर्मिणी स्त्रोके साथ समागम न करे तथा उत्तर और परिवचमकी ओर सिरहाना करके न सोये; केवल पूर्व अथवा दक्षिण दिशाकी ओर ही सिर करके सोना उचित है। दूटी और धीसी साटपर नहीं सोना चाहिये। अंग्रेजोंमें पड़ी हुई शम्पापर भी सहसा शयन करना उचित नहीं है (उजासला करके उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिये)। इसी तरह पलंगपर कमी भी तिरछा होकर नहीं, सदा सीधे ही सोना चाहिये। नास्तिक मनुष्योंके साथ काम पड़नेपर भी न जाय; उनके साथ कोई प्रतिज्ञा भी न करे। आसनको परसे खींचकर न बँडे। कमी भी नंगा होकर अथवा रातमें न नहाय। स्नानके परवात् अपने अङ्गुलीमें (सैल आदिकी) मालिश न करावे। स्नान किये बिना धन्यन न लगावे। नहा सेनेपर गीले वस्त्र न फहरावे और धीगे कपड़े कमी न पहने। गर्सेमें पड़ी हुई मालाको न लेंवे, उसे कपड़ेके ऊपर न पहने तथा रजस्वला स्त्रोके साथ कमी बातचीत न करे। बोधे हुए खेतमें, गाँवके आस-पास तथा पानीमें कमी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। भोजन करनेवाला मनुष्य पहले तीन बार जलसे आचमन करे, फिर भोजनके परचात् भी तीन आचमन करके दो बार मूंह धोवे। सदा पूर्वकी ओर मूंह करके भोजन होकर भोजन करना चाहिये। परसे हुए अन्नकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। भोजनके परचात् मन-ही-मन अग्निका ध्यान करना चाहिये। जो मनुष्य पूर्व दिशाकी ओर मूंह करके भोजन करता है उसे दीर्घायु, जो दक्षिणकी ओर मूंह करके अन्न ग्रहण करता है उसे धन, जो पश्चिमकी ओर मुख करके भोजन करता है उसे सत्यकी प्राप्ति होती है। अग्निका स्पर्श करके जलसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंका, सब अङ्गोंका, नाभिका और दोनों हृत्पेलियोंका स्पर्श करे। भूसा, भस्म, बाल और मुँहकी छोपड़ी आदिपर कमी न बँडे। दूसरेके नहाये हुए अलका दूरसेही परित्याग कर दे। शान्ति, होम और गायत्रीका जप करे। बँडकर ही भोजन करे; चलते-फिरते कमी नहीं भोजन करना चाहिये। खड़ा होकर वेशाग न करे। रातमें और गोरानाशामें भी मूत्र-मूत्रका त्याग न करे। भोज्ये पर भोजन तो करे, परंतु शयन न करे। भोज्ये पर भोजन करनेवाला मनुष्य सौ वर्षोतक जीवन् धारण करता है। भोजन करके हाथ-मूंह धोये बिना मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) रहता है, ऐसी अवस्थामें उसे अग्नि, गी तथा ब्राह्मण—इन तीन तेजस्वियों-

का स्पर्श नहीं करना चाहिये। इस प्रकार आचरण करनेसे आयुका नारा नहीं होता। उच्छिष्ट पुष्टयको भुंये, चन्द्रमा और नक्षत्र—इन त्रिविध तैलोंकी ओर कमी बुद्धि नहीं बालनी चाहिये। वृद्ध पुरुषोंके आनेपर तबज पुष्टयके प्राण ऊपरकी ओर उठने लगते हैं; ऐसी बगामें जब वह खड़ा होकर वृद्ध पुरुषोंका स्वागत और उन्हें प्रणाम करता है तो ये प्राण पुनः पूर्ववत्स्थामें आ जाते हैं। इसलिये जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे तो उसे प्रणाम करके बँडेकी आसन पर और स्वयं हाथ जोड़कर उसकी सेवामें उपस्थित रहे। फिर जब वह जाने लगे तो उसके पीछे-पीछे कुछ दूर तक जाय।

फटे हुए आसनपर न बँडे। फटी हुई काँसीकी बालीको काममें न ले। एक ही वस्त्र (केवल धोती) पहनकर भोजन न करे, साथमें गमटा भी लिये रहे। मीने बदन नहाना और सोना कवापि उचित नहीं है। उच्छिष्ट अवस्थामें भी शयन करना निषिद्ध है। ऊँडे हाथसे मस्तकका स्पर्श न करे; क्योंकि समस्त प्राण उसीके आधारेपर स्थित हैं। तिरके बाल पकड़कर लौंघना और मस्तकपर प्रहार करना वर्जित है। दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर न झुजलावे। बारंबार मस्तकपर पानी न डाले। इन बातोंके पालनसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती। सिरपर तेल लगानेके बाद उसी हाथसे दूसरे अङ्गुलीका स्पर्श नहीं करना चाहिये और तिलके बने हुए पदार्थ नहीं खाना चाहिये—ऐसा करनेसे आयुका नारा नहीं होता। ऊँडे मूंह पतना-पतना कवापि उचित नहीं है और यदि दुर्गन्धित हवा चलें तब तो मनमें भी स्वाध्यायका विन्तन नहीं करना चाहिये। प्राचीन इतिहासके जानकार लोग इस विषयमें यमराजकी गाथी हुई गाथा सुनाया करते हैं। (यमराज कहते हैं—) 'जो मनुष्य ऊँडे मूंह उठकर बीड़ता और स्वाध्याय करता है, मैं उसकी आयु मध्य कर देता हूँ और उसकी संतानोंको भी उससे छीन लेता हूँ। जो द्विज मोहवरा अनध्यायके समय भी अध्यायन करता है, उसके वैदिक ज्ञान और आयुका नारा हो जाता है।' अतः साधारण पुरयको निषिद्ध समयमें कमी अध्यायन नहीं करना चाहिये। जो भुंये, अग्नि, गी तथा ब्राह्मणोंकी ओर मूंह करके वेशाग करते हैं और बीच रातमें मूत्र-त्याग करते हैं, वे सब गतायु हो जाते हैं। मल और मूत्रका त्याग विनमें उत्तरा-भिमुख और रातमें दक्षिणाभिमुख होकर करनेसे आयुका नारा नहीं होता। जिसे बीषंकासक बीजित करनेकी इच्छा हो, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और संप—इन तीनोंको बुझने होनेपर भी न छोड़े; क्योंकि ये सभी अग्ने बहुरीसे होते हैं। जोधमें मरा हुआ सोप जहाँतक आँसुसे बेल पाता है, वहाँतक धाया करके काटता है। क्षत्रिय को हुपित होनेपर अन्नको

भर शत्रुको मस्म करनेकी चेष्टा करता है; किन्तु ब्राह्मण जब क्रुद्ध होता है तो वह अपनी दृष्टि और संकल्पसे अपना करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण कुलको दग्ध कर टालता है। इसलिये समसदार मनुष्यको यत्नपूर्वक इनकी सेवा करनी चाहिये। गुरुके साथ कभी हठ नहीं ठानना चाहिये। यदि गुरु अप्रसन्न हों तो उन्हें हर तरहसे मान देकर मनाकर प्रसन्न करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति अच्छा ही बर्ताव करना उचित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुकी निन्दा मनुष्योंकी आयु नष्ट कर देती है।

अपना हित चाहनेवाला मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाव करे, दूर ही पंर धोवे और दूरपर ही जूँटे फेंके। विद्वान् पुरुषको लाल पुष्पोंकी नहीं, श्वेत पुष्पोंकी माला धारण करनी चाहिये; किन्तु कमल और कुवलय लाल हों तो भी उन्हें धारण करनेमें कोई हर्ज नहीं है। लाल रंगके फूल तथा धन्य पुष्पको मस्तकपर धारण करना चाहिये। सोनेकी माला कभी भी पहननेसे अशुद्ध नहीं होती। स्नानके पश्चात् मनुष्यको अपने ललाटपर गोला चन्दन लगाना चाहिये। कपड़ोंमें कभी उलट-फेर नहीं करना चाहिये। दूसरेके पहने हुए कपड़े न पहने। जिसकी कोर फट गयी हो, उसको भी न धारण करे। सोते समयके लिये दूसरा, सड़कोंपर घूमनेके लिये दूसरा और देवताओंकी पूजाके लिये भी दूसरा ही वस्त्र रखना चाहिये। प्रियङ्गु, चन्दन, बिल्व, तगर तथा केसर आदि सुगन्धित वस्तुएँ शरीरमें लगानी चाहिये। स्नान करके पवित्र हो वस्त्र एवं आभूषणोंसे विभूषित होकर उपवास करे। सभी पर्वोंके समय ब्राह्मणोंसे विभूषित होकर उपवास करे। किसीके साथ एक पात्रमें भोजन करना निषिद्ध है। जिसको रजस्वला स्त्रीने छू दिया हो तथा जिसमेंसे सार निकाल लिया गया हो, ऐसे अन्नको कदापि स्रक्षण न करे। जो तरसती हुई दृष्टिसे अन्नको और देख रहा हो, उसे दिये बिना भोजन करना उचित नहीं है। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि किसी अपवित्र मनुष्यके निकट अथवा सत्पुरुषोंके सामने बैठकर भोजन न करे। धर्मशास्त्रमें जिनका निषेध किया गया है, ऐसे अन्नको छिपाकर भी न खाए। अपना कल्पाण चाहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको पीपल, बट और मूलरके फलना तथा सनके सागका सेवन नहीं करना चाहिए। विद्वान् मनुष्य हाथमें नमक लेकर न चाटे। रातको बही और सत् न खाए। साथघानीके साथ केवल खदरे और मामको ही भोजन करे, बीचमें कुछ भी खाना उचित नहीं है। चालके साथ एक थालीमें भोजन करना निषिद्ध है। शत्रुके श्राद्धमें कभी अन्न प्रहण न करे। भोजनके समय मीन रहना और आसनपर बैठना

उचित है; उस समय एक वस्त्र धारण करना, खड़ा रहना मध्य पदार्थ जमीनपर रखकर खाना और बोलते रहना निषिद्ध माना गया है। पहले अतिथिको अन्न और जल देकर पीछे स्वयं एकाग्रचित्तसे भोजन करना चाहिये। एक पङ्क्तिमें बैठनेपर सबको समान भोजन करना उचित है। जो अपने सुहृद्वर्जनोंको न देकर अकेला ही भोजन करता है, उसका अन्न हालाहल विषके समान है। भोजन-कालमें (यह अन्न पचेगा या नहीं? इस प्रकारको) शङ्का नहीं करनी चाहिये तथा भोजनके अन्तमें दही नहीं (मट्ठा) पीना चाहिये। भोजन करनेके बाद कुल्ला करके मुँह धो ले और एक हाथसे बाहिनै परके अँगूठेपर पानी छोड़ ले। फिर जलसे आँख, नाक आदि इन्द्रियों और नाभिका स्पर्श करके दोनों हाथोंकी हृत्पत्तियोंको धो डाले। धोनेके पश्चात् गोले हाथ लेकर ही न बैठ जाय (उन्हें कपड़ोंसे पोंछकर सुखा दे)। अँगूठेका मूलस्थान ब्राह्मणतीर्थ फल्लता है, अङ्गुलियोंका अग्रभाग देवतीर्थ है तथा अङ्गुष्ठ और तर्जनीके मध्यका भाग पितृतीर्थ माना गया है। श्राद्धतर्पण आदि पंतुक काम शास्त्र-विधिसे अनुसार सदा पितृतीर्थसे ही करने चाहिये।

अपनी भलाई चाहनेवाले पुरुषको दूसरोंकी निन्दा तथा अप्रिय वचन सुँहसे नहीं निकालने चाहिये, किसीको क्रोध नहीं दिलाना चाहिये तथा पतित मनुष्योंके साथ वार्तालापकी दृष्टा नहीं रखनी चाहिये। पतितोंके तो दर्शन और स्पर्शका भी परित्याग कर देना उचित है। ऐसा करनेसे मनुष्यकी आयु बढ़ती है। कुमारी कन्या और फुलटा या वेश्यासे संसर्ग न करे। अपनी पत्नीके साथ भी दिनमें तथा ऋतुकालके अतिरिक्त समयमें समागम न करे। इससे आयुकी वृद्धि होती है। अपने-अपने तीर्थमें आचमन करके कार्य आरम्भ करे और उसके पूर्ण होनेके पश्चात् पुनः तीन बार आचमन करके दो बार मुँह पोंछ ले—इससे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पहले नेत्र-नासिका आदि इन्द्रियोंका एक बार स्पर्श करके तीन बार अपने ऊपर जल छिड़के; इसके बाद वेदोक्त विधिसे अनुसार देययज्ञ और पितृयज्ञ करना चाहिये।

अन्न, ब्राह्मणोंके लिये भोजनके आदि और अन्तमें जो पवित्र एवं हितकारक शुद्धिपा विधान है, उसे ब्रता रहा हों, गुणो—ब्राह्मणको प्रत्येक शुद्धिके कार्यमें ब्राह्मणतीर्थसे आचमन करना चाहिये। यूकने और छोंकनेके वाय आचमन करनेसे ब्राह्मण पवित्र होता है। बड़े कुटुम्बों और दरिद्र मित्रको अपने घरपर आश्रय देना चाहिये; इससे धन और आयुकी वृद्धि होती है। परैवा, तोता और मैना आदि पक्षियोंका घरमें रहना अस्पृश्यकारी एवं मङ्गलमय है। ये तैलपायिक पक्षियोंकी अति

गृह, कपित (जंगली कम्बूतर) तथा छमर नामक पत्तों यदि कमी घरमें आ जायें तो शान्ति करानी चाहिये; क्योंकि ये अमङ्गलकारी होते हैं। महात्माओंकी निन्दामें भी मनुष्यका अकल्याण होता है। महात्मा पुण्यके गुण कर्म कमी कितोपर भी प्रकट नहीं करने चाहिये। परायी स्त्रीके संसर्गमें सदा बचे रहना चाहिये; इससे वीर्यायुकी प्राप्ति होती है। अपनी उन्नति चाहनेवाले बुद्धिमान् पुण्यको उचित है कि ब्राह्मणके द्वारा वास्तुपूजनपूर्वक आरम्भ करायें और अच्छे कारीगरके द्वारा बनाये हुए घरमें निवास करें। (सायंकात्ममें गोधूलिके समय) तौब लेना, पढ़ना और भोजन करना निबिड माना गया है। इन सब बातोंका पालन करनेसे मनुष्य वीर्यजोवी होता है। अपना कल्याण चाहनेवालेके लिये रातमें धाड़ करना, नहाना और सत्तु पाना बना है। भोजनके पश्चात् केरोंकी संवारना अच्छा नहीं है। निबिड पदार्थोंके सिवा और जितनी घाने-पीने की वस्तुएँ हैं, उनका उचित मात्रामें सेवन करे। जलपात्रमें रखला हुआ जल पीये। रात्रिके समय खूब डटकर भोजन न करे। पसिमोंकी हिसासे दूर रहे। उत्तम कुलमें उत्पन्न और योग्य अवस्थाको प्राप्त हुई सुलसणा कन्याके साथ विवाह करे। उसके गममें संतान उत्पन्न करके धरारम्भराकी रक्षा करे और भाल तथा कुतुम्भकी शिक्षा पानेके लिये पुर्वोंको विद्वान् गुरुके आश्रयमें भेज दे। कन्या उत्पन्न होनेपर कुलीन एवं बुद्धिमान् बरके साथ उसका ब्याह कर दे। पुत्रका विवाह भी उत्तम कुलकी कन्याके साथ करे और मृत्यु भी अच्छे कुलके मनुष्योंकी ही बनावे। मस्तरपरसे स्नान करके देवकार्य तथा पितृकार्य करे। जिस नक्षत्रमें अपना जन्म हुआ हो उसमें धाड़ करना वर्जित है। पूर्वा और उत्तराभाद्रपदा तथा कृत्तिका नक्षत्रमें भी धाड़का निषेध है। (आश्लेया, आर्द्रा, ज्येष्ठा और मूल आदि) सम्पूर्ण वाद्यन नक्षत्रों और प्रत्यरि' ताराका भी पत्तियाग कर देना चाहिये। सारांश यह कि ज्योतिष शास्त्रके भीतर जिन-जिन नक्षत्रोंमें धाड़का निषेध किया गया है, उन सबमें देवकार्य और पितृकार्य नहीं करने चाहिये। पूर्व या उत्तरकी ओर मुंह करके हजामत बनवानी चाहिये—इससे आयुकी बुद्धि होती है। निन्दा करना अघमें ब्रताया गया है, इसलिये ब्रह्मरोंकी और अपनी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये।

जो कन्या किसी अङ्गसे हीन हो अथवा जो अधिक अङ्गवाली हो, जिसके गोव और प्रवर अपने ही समान हों तथा जो नानाके कुलमें उत्पन्न हुई हो, उसके साथ विवाह

नहीं करना चाहिये। जिसके कुलका पता न हो, जो मोक्ष कुलमें पैदा हुई हो, जिसके शरीरका रंग पीला हो तथा जो कुष्ठरोगवाली हो, उसके साथ भी विवाह करना निबिड है। जिसके कुलमें किसीको मिरगी, सकेद कोड़ तथा राजव्यसा (सपेदिक) की बीमारी हो, वह कन्या भी ब्याहने योग्य नहीं मानी गयी है। जो सुप्तशशा, उत्तम आचरणशाली और देवनेमें सुन्दरी हो, उसीके साथ ब्याह करना उचित है। अपनेसे ध्येष्ठ या समान कुलमें विवाह करना चाहिये। अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुण्यकी नीच जातिवाली एवं पतित कन्याका प्राणग्रहण कदापि नहीं करना चाहिये। अतिके स्थापना करके ब्राह्मणोंद्वारा बताया हुई सम्पूर्ण वेदविहित नियमोंका यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये। स्त्रियोसि ईर्ष्या रखना उचित नहीं है। प्रत्येक उपायसे अपनी स्त्रीकी रक्षा करनी चाहिये। ईर्ष्या करनेसे आयु क्षीण होती है, इसलिये उसे स्थाप देना ही उचित है। शत्रु, भूर्भरिष्यके साथ और दिनमें सोनेसे आयुका नाश होता है। अच्छे शीघ्र रातमें अपविब होकर नहीं सोते। परस्त्रीसे श्लेषिचार करना और हजामत बनवाकर बिना महाये रहना भी आयुकी हानि करनेवाला है। अपविवाहस्थामें वेदाभ्यासका यत्नपूर्वक त्याग करे। सांध्यकालमें स्नान, भोजन और अध्ययन वर्जित है। उस समय मुद्रचित्त होकर ध्यान करनेके सिवा और कोई काम न करे। ब्राह्मणोंकी पूजा, देवताओंको नमस्कार और गुरुजनकों प्रणाम स्नानके बाद ही करने चाहिये। बिना मृत्युके नहीं भी जाना उचित नहीं है; रिशु यत्न देतेनेके लिये बिना निमंत्रणके भी जानेमें कोई हर्ज नहीं है। जहाँ अपना आबर न होता हो वहाँ जानेसे आयुका नाश होता है। अकेले परदेश जाना और रातमें दावा करना बना है। यदि किसी कामके लिये बाहर जाय तो सांध्य होनेके पहले ही घर लौट आना चाहिये। माता-पिता और गुरुजनोंकी आज्ञाका अविलम्ब पालन करना चाहिये। उनकी आज्ञा हितकर है या अहितकर, इसका विचार नहीं करना चाहिये।

मुर्धच्छिद्र। सत्रियको वेद और धनुर्वेदके अभ्यासका पालन करना चाहिये तथा हाथी-घोड़ोंकी सवारी और रथ हाँकनेकी कलामें निपुणता प्राप्त करनी चाहिये। राजन्। तुम सदा उद्योगी बने रहो; क्योंकि उद्योगी मनुष्य ही सुखी और उन्नतिशील होता है। शत्रु, भृत्य और स्वजन भी उसका परामर्श नहीं कर सकते। जो राजा सदा प्रजाकी रक्षामें संलग्न रहता है, उसे कमी हानि नहीं उठानी पड़ती। तुम लक्ष्मण और शत्रुघातक (व्याकरण) का अध्ययन करो। संगीत और समस्त कलाओंका ज्ञान प्राप्त करो। गुरु प्रि-विन पुराण, इतिहास, उपाख्यान तथा महात्माओंके जीवन-

१. अपने जन्म-नक्षत्रसे वर्तमान दिनके नक्षत्रतक गिने, गिननेपर जितनी संख्या हो उसमें नौका भाग दे, यदि पाँच दोष रहे तो उस दिनके नक्षत्रको 'प्रत्यरि सारा' समझे।

चरित्रका श्रवण करना चाहिये। यदि अपनी पत्नी रजस्वला हो तो उसके पास न जाय तथा उसे भी अपने निकट न बुलावे। चौथे दिन जब वह स्नान कर ले तो रात्रिमें उसके पास जाना चाहिये। पांचवे (श्रतुस्नानके दूसरे) दिन पत्नीके पास जानेसे कन्या पैदा होती है और छठे (ऋतुस्नानके तीसरे) दिन स्त्री-सहवास करनेसे पुत्रका जन्म होता है। विद्वान् पुरुषको इसी विधिसे पत्नीके साथ समागम करना चाहिये। सजातीय बन्धु, सम्बन्धी और मित्रोंका सदा आदर करना उचित है। अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञ करके उसमें नाना प्रकारकी दक्षिणा देनी चाहिये। तदनन्तर, गार्हस्थ्यकी अवधि समाप्त हो जानेपर वानप्रस्थके नियमोंका पालन

करते हुए वनमें निवास करना चाहिये। युधिष्ठिर! इस प्रकार मैंने तुमसे आयुकी वृद्धि करनेवाले नियमोंका संक्षेपसे वर्णन किया है। जो नियम बाकी रह गये हैं, उन्हें तुम वेदके विद्वान् ब्राह्मणोंसे पूछकर जान लेना। सदाचार ही कल्याणका जनक और कीर्तिको बढ़ानेवाला है, उसीसे आयुकी वृद्धि होती और वही बुरे लक्षणोंका नाश करता है। सम्पूर्ण आगमोंमें सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। सदाचारसे धर्म उत्पन्न होता और धर्मके प्रभावसे आयुकी वृद्धि होती है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने सब वर्णके लोगोंपर दया करके यह उपदेश दिया था। यह यश, आयु और स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला तथा परम कल्याणका आधार है।

भाइयोंके पारस्परिक बर्ताव और उपवासके फलका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! बड़े भाईका अपने छोटे भाइयोंके साथ और छोटे भाइयोंका बड़े भाईके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये? यह बतानेकी कृपा कीजिये।

भीष्मजीने कहा—बेटा! तुम अपने भाइयोंमें सबसे बड़े हो, अतः बड़ेके अनुरूप ही बर्ताव करो। गुरुका अपने शिष्यके प्रति जैसा बर्ताव होता है वैसा ही तुम्हें भी अपने भाइयोंके साथ करना चाहिये। यदि गुरु अथवा बड़े भाईका विचार शुद्ध न हो तो शिष्य या छोटे भाई उसकी आज्ञाके अधीन नहीं रह सकते। बड़ेके दीर्घदर्शी होनेपर छोटे भाई भी दीर्घदर्शी होते हैं। बड़े भाईको चाहिये कि वह अवसरके अनुसार अन्ध, जड़ और विद्वान् वने अर्थात् यदि छोटे भाइयोंसे कोई अपराध हो जाय तो उसे देखकर भी न देखे, जानकर भी अनजान बना रहे और उनसे ऐसी बात करे जिससे उनकी अपराध करनेकी प्रवृत्ति दूर हो जाय। यदि बड़ा भाई प्रत्यक्षरूपसे अपराधका दण्ड देता है तो उसके ऐश्वर्यको देखकर जलनेवाले और फूट डालनेकी इच्छा रखनेवाले कितने ही शत्रु उनमें मतभेद पैदा करा देते हैं। जेठा भाई ही अपनी अच्छी नीतिसे कुलको उन्नतिशील बनाता और वही कुनीतिका आश्रय लेकर उसे विनाशके गर्तमें डाल देता है। जहाँ बड़ा भाईका विचार खोटा हुआ, वहाँ वह अपने समस्त कुलको चौपट कर देता है। जो बड़ा होकर छोटे भाइयोंके साथ कुटिलतापूर्ण बर्ताव करता है, वह न तो बड़ा कहलाने योग्य है और न ज्येष्ठान्श पानेका ही अधिकारी है, उसे तो राजाओंके द्वारा दण्ड मिलना चाहिये। कपट करनेवाला मनुष्य निःसंदेह पापमय लोकों (नरक) में जाता है। उसका जन्म बँतके फूलकी भाँति निरर्थक ही

माना गया है। जिस कुलमें पापी पुरुष जन्म लेता है उसके लिये वह सम्पूर्ण अनर्थका कारण बन जाता है। पापी मनुष्य कुलमें कलङ्क लगाता और उसके सुयशका नाश करता है। यदि छोटे भाई भी पापकर्ममें लगे रहते हों तो वे पैतृक धनका भाग पानेके अधिकारी नहीं हैं। छोटे भाइयोंको उनका न्यायोचित भाग दिये बिना बड़े भाईको पैतृक सम्पत्तिका भाग दहेजमें नहीं देना चाहिए। यदि बड़ा भाई पैतृक धनकी सहायता लिये बिना ही अपने परिश्रमसे धन पैदा करे तो वह उस धनका स्वतन्त्र मालिक है। इच्छा न होनेपर वह उसमेंसे भाइयोंको नहीं दे सकता है। यदि भाइयोंके हिस्सेका बँटवारा न हुआ हो और सबने साथ-ही-साथ व्यापार आदिके द्वारा धनकी उन्नति की हो, उस अवस्थामें यदि पिताके जीते-जी सब अलग होना चाहें तो पिताको उचित है कि वह सब पुत्रोंको बराबर-बराबर हिस्सा दे। बड़ा भाई अच्छा काम करनेवाला हो या बुरा, छोटेको उसका अपमान नहीं करना चाहिये। इसी तरह स्त्री अथवा छोटे भाई यदि बुरे रास्तेपर चल रहे हों तो श्रेष्ठ पुरुषको जिस तरहसे भी उनको भलाई हो, वही उपाय करना चाहिये। धर्मज्ञ पुरुषोंका कहना है कि 'धर्म ही कल्याणका श्रेष्ठ साधन है।' गौरवमें दम आचायोंसे बढ़कर उपाध्याय, दस उपाध्यायोंसे बढ़कर पिता और दस पिताओंसे बढ़कर माता है। माताका गौरव समूची पृथ्वीसे भी बड़ा है। उसके समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। माताका गौरव सबसे अधिक होनेके कारण ही लोग उसका विशेष आदर करते हैं। पिताकी मृत्यु हो जानेपर बड़े भाईको ही पिताके समान समझना चाहिये। बड़े भाईको उचित है कि वह अपने छोटे भाइयोंको

जीविकाका प्रबन्ध करके उनका पालन-पोषण करे। छोटे भाइयोंका भी कर्तव्य है कि वे बड़े भाईको प्रणाम करें, उनकी आज्ञाओंमें रहें और उन्हींको पिता मानकर उनके आश्रयमें जीवन व्यतीत करें। माता-पिता केवल शरीरको उत्पन्न करते हैं; किन्तु आचार्यके उपदेशसे जो ज्ञानरूप नवीन जीवन प्राप्त होता है, वह सत्य, अजर और अमर है। बड़े बहिनको माताके समान समझना चाहिये। इसी तरह बड़े भाईको स्त्री तथा अवपनमें दूध पितादेवाली धाम भी माताके ही समान है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! सभी धर्मोंके और म्लेच्छ जातिके लोग भी उपवासमें मन लगाते हैं; किन्तु इसका कारण समझमें नहीं आता। सुना जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंको नियमोंका पालन करना चाहिये, परन्तु उपवास करनेसे उनके किस प्रयोजनकी सिद्धि होती है? यह नहीं जान पड़ता। आप कृपा करके हमें सम्पूर्ण नियमों और उपवासोंकी विधि बताइये। उपवास करनेवाले मनुष्यको क्या गति मिलती है, इसका भी वर्णन कीजिये। कहते हैं उपवास बहुत बड़ा पुण्य है और उपवास सबसे बड़ा आश्रय है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि उपवास करके मनुष्यको किस फलकी प्राप्ति होती है? किस कर्मके द्वारा पापसे छुटकारा मिलता है? और क्या करनेसे धर्मका पालन होता है?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! उपवास करनेमें जो उत्तम गुण हैं, उन्हें जाननेके लिये जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्न किया है इसी प्रकार मैंने भी पूर्वकालमें परम तपस्वी अर्जुन मुझसे प्रश्न किया था। मेरा प्रश्न सुनकर अग्नि-नन्दन अर्जुनने इस प्रकार उत्तर दिया—‘कुचनन्दन! ब्राह्मण और क्षत्रियके लिये तीन रात उपवास करनेका विधान है। कहीं-कहीं छः रात और एक रातके उपवासका भी उल्लेख मिलता है। धर्मशास्त्रके शाताश्रित वीर्य और शूद्रोंके लिये सप्ताहार चार वक्षत अर्थात् दो दिनोंका उपवास घंटाया है। उनके लिये तीन रातके उपवासका विधान नहीं है। यदि मनुष्य पञ्चमही, वट्ठी और पूर्णिमाके दिन अपने मन और इन्द्रियोंको कान्ठमें रखकर उपवास अथवा एक वक्षत भोजन करे तो वह क्षमायान्, रूपवान् और विद्वान् होता है; उसे कभी संतानहीन और दरिद्र होनेका भयसर नहीं आता। जो पुरुष अष्टमी तथा कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीको उपवास करता है, वह नरिण और बलवान् होता है। जो प्रतिदिन सबेरे और शामको ही भोजन करता है, धीचर्म जलतक नहीं पीता तथा सदा अहिंसापरायण होकर नित्य अग्निहोत्र करता है, उसे छः धर्मोंमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा वह अग्निद्योम-

यज्ञका फल प्राप्त करता है—इसमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है। यही नहीं, वह विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाता और वहाँ एक हजार वर्षोतक स्वर्गमें निवास करता है। फिर पुष्य षोण होनेपर इस लोकमें आकर महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है और जो पुरुष पूरे एक वर्षतक प्रतिदिन एक बार भोजन करता है वह अतिराज यज्ञके फलको प्राप्त होता है तथा दस हजार वर्षतक स्वर्गमें रहता है फिर वहाँसे सोडनेपर महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। जो एक वर्षतक दो-दो दिनपर भोजन करके रहता है तथा साय ही अहिंसा, सत्य और इन्द्रियसंयमका पालन करता है, उसे पात्रपेय यज्ञका फल मिलता है और वह दस हजार वर्षोतक स्वर्गलोकमें सम्मान प्राप्त करता है। जो एक साततक तीन-तीन दिनोंपर अन्न ग्रहण करता है, वह अरवमेघ यज्ञके फलका भागी होता है और विमानपर आरुह हो स्वर्गमें जाकर पालीस हजार वर्षोतक आनन्द भोगता है। जो मनुष्य चार दिनोंपर भोजन करता हुआ एक वर्षतक जीवन धारण करता है, उसे शकामय यज्ञका फल मिलता है तथा वह पचास हजार वर्षोतक स्वर्गमें सुख भोगता है। जो एक-एक पक्षका उपवास करके वर्षभर तपस्या करता है, उसको छः मासतक अनशन करनेका फल मिलता है और वह साठ हजार वर्षोतक स्वर्गमें निवास करता है। जो एक वर्षतक प्रतिमास एक बार जप पीकर रहता है, उसे विष्वजित् यज्ञका फल मिलता है और वह सत्तर हजार वर्षोतक स्वर्गमें आनन्दका अनुभव करता है। एक महर्षिने अधिकका उपवास किसीको नहीं करना चाहिये। जो बिना रोप-व्याधिसे अनशन-व्रत करता है, उसे पद-वक्षर यज्ञका फल मिलता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा पुरुष दिव्य विमानपर बैठकर स्वर्गमें जाता और वहाँ एक सत्रह वर्षोतक आनन्द भोगता है। कुलों अथवा शीगे मनुष्य भी यदि उपवास करता है तो वह एक सत्रह वर्षोतक सुखपूर्वक स्वर्गमें निवास करता है। वेदसे बड़कर कोई शास्त्र नहीं है, माताके समान कोई शुद्ध नहीं है, धर्मसे बड़कर कोई साम तथा उपवाससे बड़कर कोई तप नहीं है। इस लोक और परलोकमें जैसे ब्राह्मणोंसे बड़कर कोई पावन नहीं है उसी प्रकार उपवासके सम्मान कोई तप नहीं है। देवताओंके विधिगत उपवास करके ही स्वर्ग प्राप्त किया है तथा ऋषियोंको ही उपवासते ही उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। परम बुद्धिमान् विराजितभी एक हजार दिव्य वर्षोतक प्रतिमास एक वक्षत भोजन करके भूतका कष्ट सहते हुए तपमें लगें रहे, इसीसे उन्हें ब्राह्मणवर्गी प्राप्ति हुई। श्वयन्, जमदग्नि, बलिष्ठ, गौतम और धृष्ट-दे सभी क्षमायान् महर्षि उपवास करके ही दिव्य लोकोँकी प्राप्ति हुए हैं। कुन्तीनन्दन! महर्षि अर्जुनको बननामी

हुई इस उपवासव्रतकी विधिको जो प्रतिदिन क्रमशः पढ़ता और सुनता है, उस पुरुषका पाप नष्ट हो जाता है। वह सब प्रकारके संकीर्ण पापोंसे छुटकारा पा जाता है तथा उसके

मनपर कभी दोषोंका प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, वह पशु-पक्षियोंकी बोली समझने लगता है और संतारमें उसकी अक्षय कीर्ति फैल जाती है।



दरिद्रोंके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास-व्रतका उपदेश और मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! राजा और राजकुमारोंके पास धनकी कमी नहीं होती। वे एकाकी और असहाय भी नहीं होते अतः उनके द्वारा तो बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान होना सम्भव है; किंतु धनहीन, निर्गुण, एकाकी और असहाय मनुष्य वैसे यज्ञ नहीं कर सकते। इसलिये जिस कर्मका अनुष्ठान दरिद्रोंके लिये भी सुगम तथा बड़े-बड़े यज्ञोंके समान फल देनेवाला हो, उसीका वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! अङ्गिरा मुनिकी वतलायी हुई जो उपवासकी विधि है, वह यज्ञोंके समान ही फल देनेवाली है। उसका पुनः वर्णन करता हूँ, सुनो—जो पुरुष अहिंसापरायण हो नित्य अग्निहोत्रका अनुष्ठान करते हुए प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकालमें ही भोजन करता है, बीचमें जलपानतक नहीं करता, उसे छः वर्षोंमें ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह अग्निके समान तेजस्वी प्रजापतिलोकमें एक पद्म वर्षांतक निवास करता है। जो एकपत्नी-व्रतका पालन करते हुए निरन्तर तीन वर्षांतक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है। जो नित्य अग्निमें होम करता हुआ एक वर्षांतक प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन करता है तथा सदा सबेरे उठता और अग्निहोत्रके कार्योंमें लगा रहता है, वह भी अग्निष्टोम यज्ञके ही फलका भागी होता है। जो बारह महीनोंतक प्रति तीसरे दिन एक समय भोजन करता, नित्य सबेरे उठता और अग्निहोत्र किया करता है, उसे अतिरात्र यागका उत्तम फल प्राप्त होता है तथा वह पुरुष तीन पद्म वर्षांतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। जो अग्निहोत्रपूर्वक बारह महीनोंतक प्रति चौथे दिन एक बार अन्न ग्रहण करता है, वह वाजपेय यज्ञके उत्तम फलका भागी होता है तथा वह इन्द्रलोकमें रहकर सदा देवराजकी श्रोत्रियोंकी देखा करता है। बारह महीनोंतक प्रति पाँचवें दिन एक समय भोजन करके नित्य अग्निहोत्र करनेवाला, लोमहीन, सत्यवादी, ब्राह्मणभक्त, अहिंसक, ईर्ष्यारहित और पापकर्मसे दूर रहनेवाला पुरुष द्वादशह यज्ञका फल प्राप्त करता है तथा

वह इक्ष्वावन पद्म वर्षांतक स्वर्गलोकमें सुख भोगता है। जो प्रति छठे दिन एक वक्त भोजन करके बारह महीनोंतक मौनभावसे अग्निहोत्रका अनुष्ठान करता, तीनों समय नहाता, ब्रह्मचर्यका पालन करता और किसीके दोषोंपर दृष्टि नहीं डालता है, वह मनुष्य दो पताका (महापद्म), अठारह पद्म, एक हजार तीन सौ करोड़ और पचास अयुत वर्षांतक तथा सौ रीछोंके चमड़ोंमें जितने रोएँ होते हैं उतने वर्षांतक ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है। जो एक वर्षांतक प्रति सातवें दिन एक समय भोजन करता, नित्य अग्निहोत्र करता, वाणीको नियममें रखता और ब्रह्मचर्यका पालन करता है, वह असंख्य वर्षांतक देवताओं और इन्द्रके लोकमें निवास करता है तथा जिस यज्ञमें बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणा दी जाती है, उसके फलका वह भागी होता है। जो प्रति आठवें दिन एक वक्त भोजन करके बारह महीनोंतक क्षमाशील, देवकार्य-परायण और अग्निहोत्री होकर जीवन व्यतीत करता है, उसे पुण्डरीक यज्ञका सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जो प्रति नवें दिन एक समय अन्न ग्रहण करके वर्षभर नित्य अग्निहोत्रका अनुष्ठान करता है, उसे एक हजार अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है तथा वह पुण्डरीकके समान श्वेतवर्णके विमानपर आरूढ़ हो रत्नलोकमें जाकर वहाँ एक कल्प, लाख करोड़ और अठारह हजार वर्षांतक सुख भोगता है। जो प्रति दसवें दिन एक समय भोजन करके बारह मासोंतक नित्य अग्निमें हवन करता है वह ब्रह्मलोकका निवासी होता है, उसे एक हजार अश्वमेध-यज्ञका उत्तम फल मिलता है तथा वह नीले और लाल कमलके समान अनेकों रंगोंसे सुशोभित मण्डलाकार घूमनेवाला, सागरकी लहरोंके समान ऊपर-नीचे होनेवाला, विचित्र मणि-मालाओंसे अलंकृत और शङ्ख-ध्वनिसे परिपूर्ण विमान प्राप्त करता है। जो पुरुष बारह महीनोंतक सदा ग्यारहवें दिन भोजन करते हुए अग्निमें हवन करता है, मन और वाणीसे भी परस्त्रीकी अभिलाषा नहीं करता तथा माता-पिताके लिये भी कभी मूठ नहीं बोलता है, वह विमानमें विराजमान परम शक्तिमान् देवदेव महादेवजीके पास गमन

करता और हजार अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता है। उसके पास बह्मराजीका भेजा हुआ विमान स्वतः उपरिस्थित दिसायी देता है। उसीपर बैठकर वह ब्रह्मलोकमें जाता है और वहाँ असंख्य वर्षोंतक निवास करता हुआ प्रतिदिन देव-दान-वन्दित भगवान् शंकरको प्रणाम करता है। वे भगवान् उसे नित्यप्रति दर्शन देते रहते हैं। जो बारह महीनोंतक प्रति बारहवें दिन केवल घी पीकर रहता है, उसे सर्वमेघ यज्ञका फल मिलता है और वह सूर्यके समान प्रकाशमान विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। वहाँ उसे बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओंसे युक्त महल प्राप्त होते हैं, जो उसकी सेवा करनेवाले हजारों नर-नारियोंसे भरा रहता है। इस प्रकार महाभाग अङ्गिरा मुनिने उपवासका महान् फल बतलाया है।

युधिष्ठिर ! इन उपवास-धर्मोंका अनुष्ठान करके दरिद्र मनुष्योंने यज्ञका फल प्राप्त किया है। जो मनुष्य उपवास-पूर्णक देवता और ब्राह्मणोंकी पूजामें संलग्न रहता है, उसे परम पदको प्राप्ति होती है। नियमशील, सावधान, पवित्र, महामना, दम्भद्रोहविहीन, विशुद्धबुद्धि, अचल और स्थिर स्वभाववाले मनुष्योंके लिये मैंने यह उपवासको विधि बतलायी है, इसमें सुगृह किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! जो सब तीर्थोंमें ध्येष्ठ हो तथा जहाँ जानेसे परम शुद्धि हो जाती हो, उसका वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सब मनीषी पुरुषके लिये गुणकारी होते हैं; किन्तु उन सबमें जो परम पवित्र और प्रधान तीर्थ है उसका वर्णन करता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो—जिसमें धर्मरूप कुण्ड और सत्यरूप जल भरा हुआ है तथा जो अगाध, निर्मल एवं अत्यन्त शुद्ध है, उस मानसतीर्थमें सदा सत्यगुणका आश्रय लेकर स्नान करना चाहिये। कामनाका अभाव, सरसता, सत्य, मृदुता, अहिंसा, शूरताका अभाव, इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रह—ये ही इस मानसतीर्थके सेवनसे प्राप्त होनेवाली पवित्रताके लक्षण हैं। जो ममता, अहंकार, द्वन्द्व और परिग्रहका सर्वथा त्याग करके निःसासे जीवन-निर्वाह

करते हैं, वे विशुद्ध अन्तःकरणवाले महात्मा पुरुष तीर्थस्वरूप हैं। जिसकी बुद्धिमें अहंकारका नाम भी नहीं है, वह तत्त्व-ज्ञानी ध्येष्ठ तीर्थ कहलाता है। जिनके मनसे तमोगुण, रजोगुण और सत्यगुण दूर हो गये हैं, जो बाहरी पवित्रता-अपवित्रतापर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य (ब्रह्मविचार) में पराधन रहते हैं, जिन्हें सर्वस्वके त्यागमें ही प्रसन्नता होती है, जो सर्वत्र, समदर्शी तथा शोचाचारका पावन करनेवाले हैं, वे संत पुरुष ही परम पवित्र तीर्थस्वरूप हैं। शरीरको केवल पानीसे मिथो लेना ही स्नान नहीं कहलाता; सच्चा स्नान तो उसीने किया है, जो इन्द्रियसंयममें निष्णात है। त्रिनेत्रिय पुरुष ही बाहर और भीतरसे शुद्ध माना गया है। जो मत्त हुए विषयोंकी परवा नहीं करते, प्राप्त हुए पदार्थोंमें ममता नहीं रखते तथा जिनके मनमें कोई इच्छा पंचा ही नहीं होती, वे ही परम पवित्र हैं। इस जगत्में प्रज्ञान ही शरीरशुद्धि का विशेष साधन है। इसी प्रकार अकिंचनता और मनकी प्रसन्नता भी शरीरको शुद्ध करनेवाले हैं। शुद्धि चार प्रकारकी है—आचारशुद्धि, मनःशुद्धि, तीर्थशुद्धि और ज्ञानशुद्धि; इनमें ज्ञानसे प्राप्त होनेवाली शुद्धि ही सबसे ध्येष्ठ मानी गयी है। मानसतीर्थमें प्रसन्न मनसे ब्रह्मज्ञानरूपी जलके द्वारा जो स्नान किया जाता है, वही तत्त्वज्ञानियोंका स्नान है। जो सदा शोचाचारसे सम्पन्न, विशुद्ध भावसे युक्त और सद्गुणोंसे विभूयित है, उस मनुष्यको सदा शुद्ध ही समझना चाहिये।

यह मैंने शरीरमें स्थित तीर्थका वर्णन किया, अब पृथ्वीके पुण्य तीर्थोंका महत्त्व सुनो—जैसे शरीरके विभिन्न स्थान पवित्र बतलाये गये हैं उसी प्रकार पृथ्वीके मित्र-मित्र भाग भी पवित्र तीर्थ हैं और वहाँका जल पुण्यरूप माना गया है। जो लोग तीर्थोंका नाम लेकर, तीर्थोंमें स्नान करके तथा उनमें पितरोंका सर्पण करके अपने पाप धो डालते हैं, वे बड़े सुलसे स्वर्गमें जाते हैं। पृथ्वीके कुछ भाग तापु पुरुषोंके निवाससे तथा स्वयं पृथ्वी और जलके तेजसे अत्यन्त पवित्र माने गये हैं। इस प्रकार पृथ्वीपर भी परममें भी अनेकों पुण्यमय तीर्थ हैं। जो इन दोनों प्रकारके तीर्थोंमें स्नान करता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है।

वृहस्पतिका युधिष्ठिरसे प्राणियोंके जन्मका प्रकार और पापोंके कारण तिर्यक् योनियोंमें जन्म लेनेका क्रम बतलाना

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्य किस कर्तव्यसे स्वर्गमें जाते हैं ? और कंसे कर्तव्यसे नरकमें पड़ते हैं ? वे अपने मृतक शरीरको काष्ठ और मिट्टीके

ढेंसेके समान वहाँ छोड़कर जब परलोककी राह लेते हैं, उस समय उनके पीछे कौन जाता है ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! वे उसारुद्धि

यहाँ पधार रहे हैं, इन्हींसे इस सनातन गढ़ विषयकी पूछो।

इन दोनोंमें इस प्रकार बात हो ही रही थी कि बृहस्पतिजी वहाँ आ पहुँचे। धर्मराज युधिष्ठिरने समासदोसहित उनकी पूजा की और उनके पास जाकर इस प्रकार प्रश्न किया—'भगवन् ! आप सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञाता और सब शास्त्रोंके विद्वान् हैं, अतः बतलाइये पिता, माता, पुत्र, गुरु, सजातीय, सम्बन्धी और मित्र आदिमेंसे मनुष्यका सच्चा सहायक कौन है? जब सब लोग मरे हुए शरीरको काठ और ढेलेंके समान त्याग कर चल देते हैं उस समय जीवके साथ परलोकमें कौन जाता है?'



बृहस्पतिजीने कहा—राजन् ! प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुःखसे पार होता है तथा अकेला ही दुर्गति भोगता है, पिता, माता, भाई, पुत्र, गुरु, सजातीय, सम्बन्धी और मित्रोंमेंसे कोई उसका सहायक नहीं होता। लोग उसके मरे हुए शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेंकी तरह फँककर थोड़ी देरतक रोते हैं और फिर उसकी ओरसे मुँह फेरकर चल देते हैं। उस समय केवल धर्म ही जीवके पीछे-पीछे जाता है; अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिये मनुष्योंको सदा धर्मका ही सेवन करना चाहिये। धर्मयुक्त प्राणी स्वर्गमें जाता है और अधर्मपरायण जीव नरकमें पड़ता है। अतः विद्वान् पुरुषको चाहिये कि न्यायसे

प्राप्त हुए धनके द्वारा धर्मका अनुष्ठान करे। एकमात्र धर्म ही परलोकमें मनुष्योंका सहायक होता है। अविवेकी मनुष्य ही लोभ, मोह अथवा भयसे दूसरोंके लिये पाप करता है।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! आपके मुँहसे मैंने धर्म-युक्त एवं अत्यन्त हितकारक बातें सुनीं, किंतु मनुष्यका स्थूल-शरीर तो मरकर यहाँ पड़ा रह जाता है और उसका सूक्ष्म-शरीर अव्यक्त—नेत्रोंकी पहुँचसे परे हो जाता है, ऐसी दशामें धर्म किस प्रकार उसका अनुसरण करता है?

बृहस्पतिजीने कहा—धर्मराज ! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, यम, बुद्धि और आत्मा—ये सब एक ही साथ सदा मनुष्यके धर्मपर दृष्टि रखते हैं। दिन और रात भी सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मोंके साक्षी हैं। इन सबके साथ धर्म जीवका अनुसरण करता है। तत्पश्चात् धर्माधर्मसे युक्त प्राणी (परलोकमें अपने कर्मोंका भोग समाप्त करके) दूसरा शरीर धारण करता है। उस समय उस शरीरमें स्थित पञ्चभूतोंके अधिष्ठाता देवता पुनः उसके शुभाशुभ कर्मोंको देखने लगते हैं।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस शरीरमें वीर्यकी उत्पत्ति कैसे होती है?

बृहस्पतिजीने कहा—राजन् ! इस शरीरमें स्थित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मनके अधिष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करके पूर्ण तृप्त होते हैं उसीसे स्थूल वीर्यकी उत्पत्ति होती है। फिर स्त्री-पुरुषका संयोग होनेपर वही वीर्य गर्भका रूप धारण करता है।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! जीव त्वचा, अस्थि और मांसमय शरीरका त्याग करके जब पाँचों भूतोंके सम्बन्धसे पृथक् हो जाता है तो कहाँ रहकर सुख-दुःखका अनुभव करता है?

बृहस्पतिजीने कहा—भारत ! जीव अपने कर्मोंसे प्रेरित होकर शीघ्र ही वीर्यका आश्रय लेता है और स्त्रीके रजमें प्रविष्ट होकर समयानुसार जन्म धारण करता है। (गर्भमें आनेके पहले वह सूक्ष्म शरीरमें स्थित होकर अपने दुष्कर्मोंके कारण) यमदूतोंके प्रहार सहता, क्लेश उठाता और दुःखमय संसारचक्रमें दुर्गति भोगता है। यदि प्राणी इस लोकमें जन्मसे ही पुण्यकर्ममें लगा रहता है तो वह धर्मके फलका आश्रय लेकर उसके अनुसार सुख भोगता है। जो अपनी शक्तिके अनुसार बाल्यकालसे ही धर्मका सेवन करता है, वह मनुष्य होकर सदा सुखका अनुभव करता है; किंतु धर्मके बीचमें यदि कभी-कभी वह अधर्मका भी आचरण कर बैठता है तो उसे सुखके वाद दुःख भी भोगना पड़ता है। अधर्मपरायण मनुष्य यमलोकमें जाता है और वहाँ महान् कष्ट भोगकर पशु-पक्षियोंकी योनियोंमें जन्म लेता है। जीव मोहके वशीभूत होकर जिस-

जिस कर्मका अनुष्ठान करनेसे जैसी-जैसी योनियोंमें जन्म धारण करता है, उसे मैं बता रहा हूँ, सुनो—शास्त्र, इतिहास और वेदमें भी यह बात बतायी गयी है कि मनुष्य इस लोकमें पाप करनेपर मृत्युके पश्चात् परपराजके भयंकर लोकमें जाता है। जो द्विज धारों बेटोंका अध्ययन करनेके बाद भी मोहवशा पतित मनुष्योंसे बान लेता है, उसे गवहेको योनियोंमें जन्म-लेना पड़ता है। पंद्रह वर्षोतक गवहेके शरीरमें रहकर वह मृत्युको प्राप्त होता है फिर सात वर्षोतक बल्लकी योनियोंमें रहकर शरीर-त्यागके पश्चात् तीन महोनेतक ब्राह्मरासस होता है, उसके बाद वह पुनः ब्राह्मणका जन्म पाता है। पतित पुरुषका यज्ञ करानेवाला ब्राह्मण मरनेके बाद पंद्रह वर्ष कीड़ा, पाँच वर्ष गवहा, पाँच वर्ष भ्रूअर, पाँच वर्ष भूर्गा, पाँच वर्ष सिपार और एक वर्ष कुत्तेकी योनियोंमें रहकर अन्तमें मनुष्यका जन्म पाता है। जो शिष्य मूर्खतावश अपने अध्यापकका अपराध करता है, वह पहले कुत्ता, फिर राक्षस, फिर गवहा और फिर बल्लेसा भोगनेवाला प्रेत होकर अन्तमें ब्राह्मण होता है। जो पापाचारी शिष्य गुरुकी स्त्रीके साथ समागमका विचार भी मनमें लाता है, वह अपने मानसिक पापके कारण भयंकर योनियोंमें जन्म लेता है। पहले कुत्ता होकर तीन वर्षोतक जीवन धारण करता है, फिर मरनेके बाद एक साल कीड़ेकी योनियोंमें रहता है। उसके बाद ब्राह्मण-योनियोंमें उत्पन्न होता है। यदि गुरु अपने पुत्रके समान प्रिय शिष्यको बिना कारणके ही मारता-पीड़ता है तो वह अपनी स्वेच्छाचारिताके कारण हिसक पशुकी योनियोंमें जन्म लेता है। जो पुत्र अपने माता-पिताका अनादर करता है, वह मरनेके बाद गवहेकी योनियोंमें जन्म लेता है और उसमें दस वर्षोतक जीवित रहकर शरीर त्यागनेके पश्चात् एक सालतक घड़ियालकी योनियोंमें रहता है। जिस पुत्रके ऊपर माता और पिता दोनों ही दष्ट होते हैं, वह गुरुजनोंके अनिष्टचिन्तनके कारण मृत्युके बाद दस महोने गवहा, चौदह महोने कुत्ता और सात महोने बिलाव होकर अन्तमें मनुष्यकी योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है। माता-पिताको गाली देनेवाला मनुष्य मना होता है तथा जहाँ मारने-वाला पुत्र दस वर्ष कष्टवा, तीन वर्ष साही और छः महोने साँपकी योनियोंमें जन्म लेकर फिर मनुष्य होता है। जो पुरुष राजाके टुकड़े खाकर पलता हुआ भी मोहवशा उसके शत्रुओंकी सेवा करता है, वह मरनेके बाद दस वर्ष बानर, पाँच वर्ष चूहा और छः महोने कुत्ता होकर फिर मनुष्य-योनियोंमें आता है। दूसरोंकी धरोहर हड़प लेनेवाला मनुष्य धमलोकमें जाता है और क्रमशः सौ योनियोंमें भ्रमण करके अन्तमें कीड़ा होता है। कीड़ेकी योनियोंमें पंद्रह वर्षोतक जीवित रहनेके बाद जब उसके पापोंका क्षय हो जाता है तो वह मनुष्यका जन्म पाता

है। दूसरोंके धोष झूठनेवाला मनुष्य हरिणकी योनियोंमें जन्म लेता है। जो अपनी कुर्बंदिके कारण किसीके साथ विरवात-घात करता है, वह आठ वर्ष मच्छली, चार महोना हरिण, एक साल बकरा और उसके बाद कीड़ा होकर अन्तमें मनुष्ययोनियोंमें जन्म लेता है। जो पुरुष सज्जाका परित्याग करके अज्ञान और मोहके बशीरूत होकर धान, जौ, तिल, उड़द, कुसुपी, सरसों, चना, मटर, भूंग, गेहूँ और तीसी तथा दूसरे-दूसरे अनाजोंकी चोरी करता है, वह मरनेके बाद पहले चूरा होता है, फिर कुछ दिनों बाद मृत्युको प्राप्त होकर भ्रूअरकी योनियोंमें जन्म लेता है। वह भ्रूअर पंदा होते ही रोगसे मर जाता है। फिर पाँच वर्षोतक कुत्तेकी योनियोंमें रहकर अन्तमें मनुष्य होता है। परस्त्रीगमनका पाप करके मनुष्य क्रमशः भेंड़िया, कुत्ता, सिपार, गुम, साँप, कच्छू और बगला होता है। जो पापात्मा मोहवशा भाईकी स्त्रीसे ध्यमिघार करता है, वह एक वर्षोतक कोमलकी योनियोंमें पड़ा रहता है। जो काम-वासनाको पूर्तिके लिये मित्र, गुरु और राजाकी स्त्रीके साथ बलात्कार करता है, वह मरनेके पीछे पाँच वर्ष भ्रूअर, दस वर्ष भेंड़िया, पाँच वर्ष बिलाव, दस वर्ष भूर्गा, तीन महोने घोंटी और एक महोना कीड़ेकी योनियोंमें भ्रमण करके पुनः चौदह महोनेतक कीट-योनियोंमें पड़ा रहता है। इसके बाद पापोंका क्षय होनेपर उसे मनुष्ययोनियोंमें मिलती है। जो ब्याह, यज्ञ अथवा दानका अवसर आनेपर मोहवशा उसमें शिष्ट बालता है, वह पंद्रह वर्षोतक कीड़ेकी योनियोंमें रहकर पापका भोग समाप्त होनेके पश्चात् मनुष्य होता है। जो पहले एक ध्यवितको कन्यादान करके फिर दूसरेको उसी कन्याका दान करना चाहता है, वह मरनेके बाद तेरह वर्षोतक कीड़ेकी योनियोंमें रहकर पाप क्षीण होनेके अनन्तर पुनः मनुष्य होता है। जो देवकार्य अथवा पितृकार्य न करके बलिबंधवदेव किये बिना हो अन्न ग्रहण करता है, वह मरनेके बाद सौ वर्षोतक कौएकी योनियोंमें पड़ा रहता है। इसके बाद क्रमशः भूर्गा और साँप होकर अन्तमें मनुष्यका जन्म पाता है। बड़ा भाई पिताके समान आदरणीय है; जो उसका अनादर करता है, उसे मृत्युके बाद क्रीडचपरीकी योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। उसमें एक वर्ष रहकर वह चीरक जातिका पशु होता है और फिर मरनेके बाद मनुष्य-योनियोंमें जन्म पाता है। शूद्र-जातिका पुरुष ब्राह्मणजातिकी स्त्रीके साथ समागम करके देहत्यागके पश्चात् पहले कीड़ेकी योनियोंमें जन्म लेता है, फिर मरनेके बाद भ्रूअर होता है; भ्रूअरकी योनियोंमें पंदा होते ही वह रोगका शिकार होकर मर जाता है; उसके बाद कुत्ता होकर अपने पापकर्मोंका भोग समाप्त करके मनुष्य-योनियोंमें जन्म धारण करता है। मनुष्य-योनियोंमें जो वह एक ही संतान पंदा करके

मृत्युका शिकार हो जाता है और चूहा होकर शेष पापोंका उपभोग करता है। कृतघ्न मनुष्य मरनेके बाद यमराजके लोकमें जाता है। वहाँ यमदूत शोधमें भरकर उसके ऊपर बड़ी निर्दयताके साथ प्रहार करते हैं। उसे दण्ड, मुद्गर और शूलकी चोट खाकर दारुण अग्निकुम्भ (कुम्भोपाक), असिपत्रवन, तपी हुई चालू, काँटोंसे भरी हुई शाल्मली तथा अन्यान्य नरकोंकी भयंकर यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। इस प्रकार निर्दयी यमदूतोंसे पीड़ित होकर कृतघ्न पुरुष पुनः संसारचक्रमें आता और कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है। पंद्रह वर्षोंतक कीटयोनिमें रहनेके बाद मर जाता है, फिर वारंवार गर्भमें आकर उसीमें नष्ट होता रहता है। इस तरह सैंकड़ों बार गर्भकी यन्त्रणा भोगकर बहुत बार जन्म लेनेके पश्चात् वह तिर्यग्-योनिमें उत्पन्न होता है। इस योनिमें बहुत वर्षोंतक दुःख भोगकर अन्तमें कछुवेकी योनिमें जन्म लेता है। दही चुरानेवाला बगला और शहदकी चोरी करनेवाला डाँस होता है। फल, मूल अथवा पूएकी चोरी करनेवालेको चाँदीकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है। जो निष्पाव नामक अन्न चुराता है, वह हलगोलक नामवाला कीड़ा होता है। खीरकी चोरी करनेवाला तीतर, भरा हुआ पूआ चुरानेवाला उल्लू, लोहा चुरानेवाला कौआ, काँसीका वर्तन चुरानेवाला हारीत नामक पक्षी, चाँदीके वर्तनकी चोरी करनेवाला कबूतर, सोनेका वर्तन चुरानेवाला कीड़ा, ऊनी वस्त्र चुरानेवाला कुकल, रेशमी वस्त्रका अपहरण करनेवाला वत्सल, महीन कपड़ा चुरानेवाला तोता, पट्ट-वस्त्र चुरानेवाला हंस, सूती वस्त्रका अपहरण करनेवाला क्रीञ्च, ऊनी वस्त्र, क्षौमवस्त्र तथा पाटम्बरकी चोरी करनेवाला खरगोश, नाना प्रकारके रंग चुरानेवाला मोर और लाल कपड़ोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य चकोर पक्षीका जन्म पाता है। जो मनुष्य लोभके वशीभूत होकर अनुलेपन और चन्दन आदिका अपहरण करता है, वह छूँदरकी योनिमें जन्म लेता है और उसमें पंद्रह वर्षोंतक जीवित रहकर पाप क्षीण होनेके बाद फिर मनुष्यका जन्म पाता है। दूध चुरानेसे बलाकाकी योनि मिलती है। जो मोहयश तेल चुराता है, वह मरनेके बाद तेल पीनेवाला कीड़ा होता है। यदि कोई नीच मनुष्य धनके लोभसे अथवा शत्रुताके कारण हथियार लेकर निहृत्ये पुरुषको मार डालता है तो वह अपनी मृत्युके बाद गदहेकी योनिमें जन्म लेता है। दो वर्ष गदहेके रूपमें रहकर देहव्यागके पश्चात् सदा प्राणोंके भयसे उद्विग्न रहनेवाला हरिण होता है। फिर एक वर्ष पूरा

होते-होते वह शस्त्रद्वारा मारा जाकर मछलीका जन्म पाता है और चौथे महीनेमें जालमें फँसकर मृत्युको प्राप्त होता है। उसके बाद उसे दस वर्ष बाघ और पाँच वर्ष चीता होकर रहना पड़ता है। तदनन्तर, पापका क्षय होनेपर कालकी प्रेरणासे मृत्युको प्राप्त होकर वह मनुष्य-योनिमें जन्म लेता है। जो कुष्ठ बुद्धिवाला पुरुष स्त्रीकी हत्या करता है, वह यमराजके लोकमें जाकर नाना प्रकारके क्लेश भोगता है। फिर बीस बार दुःखद योनिघोंमें भ्रमण करके अन्तमें कीड़ेका जन्म पाता है और बीस वर्षतक कीट-योनिमें रहकर फिर मनुष्य होता है। भोजनकी चोरी करनेसे मनुष्य मक्खी होता है और कई महीनेतक मक्खियोंके समूहमें रहकर पाप क्षय होनेके बाद पुनः मनुष्ययोनिमें आता है। धान चुरानेवाले मनुष्यके देहमें दूसरे जन्ममें बहुत-से रोएँ होते हैं। जो मनुष्य तिलके चूर्णसे मिश्रित भोजनकी चोरी करता है, वह नेवलेके समान आकारवाला भयानक चूहा होता है तथा वह पापी सदा मनुष्योंको काटा करता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य घी चुराता है, वह काकमद्गु (सिंगवाला जलपक्षी) होता है। नमक चुरानेवाला चिरिकाक होता है। जो मनुष्य विश्वासपूर्वक रखी हुई दूसरेकी धरोहरको हड़प लेता है, वह मरनेके बाद मछलीका जन्म पाता है और कुछ समय बाद मृत्युको प्राप्त होकर मनुष्य-योनिमें जन्म लेता है। मनुष्य होनेपर भी उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है।

भारत ! इस प्रकार मनुष्य पाप करके तिर्यक्-योनिघोंमें जन्म लेते हैं। वहाँ उन्हें अपने उद्धार करनेवाले धर्मका किञ्चित् भी ज्ञान नहीं रहता। जो पापाचारी पुरुष लोभ और मोहके वशीभूत हो पाप करके उसे व्रत आदिके द्वारा दूर करनेका प्रयत्न करते हैं, वे सदा सुख-दुःख भोगते हुए व्यथित रहते हैं, उन्हें कहीं रहनेको ठौर नहीं मिलता तथा वे म्लेच्छ होकर हमेशा मारे-मारे फिरते हैं। जो मनुष्य जन्मसे ही पापका परित्याग करते हैं, वे नीरोग, रूपवान् और धनी होते हैं। स्त्रियाँ यदि उपर्युक्त कर्म करती हैं तो उन्हें भी पाप लगता है और वे उन पापभोगी प्राणियोंकी ही भार्या होती हैं। महाराज ! पूर्वकालमें ब्रह्माजी देवार्थियोंके बीच यह प्रसंग सुना रहे थे। वहाँ उन्हींके मुँहसे मैंने ये सारी बातें सुनी थीं और तुम्हारे पृष्ठनेपर उन्हीं बातोंका यथावत् वर्णन किया है। यह उपदेश सुनकर तुम्हें अपने मनको सदा धर्ममें लगाये रखना चाहिये।

बृहस्पतिका युधिष्ठिरको अन्न-दान और अहिंसा-धर्मकी महिमा बताना

युधिष्ठिरने पूछा—ब्रह्मन् ! अब मैं धर्मका परिणाम सुनना चाहता हूँ। कौन-से कर्म करनेपर मनुष्यको उत्तम गति प्राप्त होती है ?

बृहस्पतिजीने कहा—राजन् ! जो मनुष्य पाप-कर्म करता है, वह अधर्मके बशमें ही जाता है और उसका मन धर्मके विपरीत मार्गमें जाने लगता है; इसलिये उसे नरकमें गिरना पड़ता है। जो मोहब्रह्म अधर्म बन जानेपर पीछेसे परचात्ताप करता है, उसे चाहिये कि मनको बशमें रसकर फिर कभी पापका सेवन न करे। मनुष्यका मन ज्यों-ज्यों पाप-कर्मकी निन्दा करता है, त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्मके बन्धनसे मुक्त होता जाता है। यदि पापी पुण्य धर्मतः ब्राह्मणों-से अपना पाप मतला वे तो वह उस अधर्मके कारण होनेवाली निन्दासे शीघ्र ही छूटकारा पा जाता है। मनुष्य अपने मनको स्थिर करके जैसे-जैसे अपना पाप प्रकट करता है वैसे-ही-वैसे वह उससे मुक्त होता जाता है। अब मैं दानोंका वर्णन करता हूँ। सब प्रकारके दानोंमें अन्नका दान श्रेष्ठ बताया गया है, अतः धर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको सरल भावसे पहले अन्नका ही दान करना चाहिये। अन्न मनुष्योंका प्राण है। अन्नसे ही समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है और अन्नके ही आधारपर सारा संसार टिका हुआ है; इसलिये अन्न सबसे उत्तम माना गया है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नको ही विशेष प्रशंसा करते हैं। राजा रन्तिदेव अन्नके ही दान से स्वर्गनोक्तको प्राप्त हुए थे। अतः स्वाध्यायपरायण ब्राह्मणोंकी प्रसन्नचित्तसे न्यायोपाजित अन्नका दान करना चाहिये। जो मनुष्य दस हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराता और सदा योग-साधनमें संलग्न रहता है, वह पापके बन्धनसे छूट जाता है तथा उसे तिम्रंग-मोनिमें नहीं जाना पड़ता। वेदतः ब्राह्मण मित्रासे अन्न साकर यदि अध्ययनशील विप्रकी दान देता है तो इस लोकमें सदा सुखी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मणके धनका अपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए अपने बाहु-बलसे प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको शूद्र एवं समाहित चित्तसे दान करता है, वह उस अन्न-दानके प्रभावसे अपने पूर्वकृत पापोंका नारा कर शक्तता है। यदि धैर्य शैतोसे अन्न पंदा करके उसका छटा भाग ब्राह्मणोंको दान कर देता है तो वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। शूद्र भी यदि प्राणोंकी परवा न करके कठोर परिश्रमसे कमाया हुआ अन्न ब्राह्मणोंको दान करता है तो पापसे छूटकारा पा जाता है। जो किसी प्राणीकी हिंसा न करके

अपनी छातीके बलसे पंदा किया हुआ अन्न विप्रोंको दान करता है, वह कभी दुःखके दिन नहीं देखता। म्यापके अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको हवंपूर्वक दान देनेवाला मनुष्य अपने पापोंके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। अन्न ही बलकी वृद्धि करनेवाला है, अतः इस संसारमें अन्नका दान करनेवाला मनुष्य बलवान् होता है और सत्पुरुषोंके मार्गका आश्रय संकर समस्त पापोंसे छूट जाता है। दाता पुराणोंमें जिस मार्गको प्रवृत्त किया है, उसीसे विद्वान् पुण्य भी चलते हैं। अन्न-दान करनेवाले मनुष्य वास्तवमें प्राण-दान करनेवाले हैं। उन्हीं लीगोंसे सनातन धर्मकी वृद्धि होती है। मनुष्यको प्रत्येक अवस्थामें म्यापतः उपाजित किया हुआ अन्न सत्यान्नको दान करना चाहिये; यमोक्ति अन्न ही सब प्राणियोंका परम आधार है। अन्न-दान करनेसे मनुष्यको कभी नरककी प्रवृत्ति मतानी नहीं भोगनी पड़ती, अतः म्यायोपाजित अन्नका सदा ही दान करना चाहिये। प्रत्येक गृहस्थको उचित है कि वह पहले ब्राह्मणको भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करनेका प्रयत्न करे तथा अन्न-दानके द्वारा प्रत्येक दिनको सकल बनावे। जो मनुष्य वेद, धर्म, न्याय और इतिहासके जानेवाले एक हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, वह नरक और संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता; इस लोकमें उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और मरनेके बाद वह स्वर्गमें सुख भोगता है। राजन् ! अन्न-दान तप्य प्रकारके धर्मों और दानोंका मूल है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अन्नदानका महान् फल बतलाया है।

युधिष्ठिरने पूछा—मगवन् ! अहिंसा, वेदोक्त कर्म, ध्यान, इन्द्रियसंयम, तपस्या और गुहाध्याय—इनमेंसे कौन-सा कर्म मनुष्यका विशेष कल्याण कर सकता है ?

बृहस्पतिजीने कहा—भारत ! ये सभी कर्म धर्मनिष्ठ होनेके कारण कल्याणके साधन हैं। अब मैं मनुष्यके लिये कल्याणके सर्वश्रेष्ठ उपायका वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य अहिंसामुक्त धर्मका पालन करता है, वह काम, मोक्ष और सोमरूप तीनों बोधोंका त्याग करके सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। जो अपने सुलको इच्छासे अहिंसक प्राणियोंको बँडोते पीड़ता है, वह परलोकमें सुखी नहीं होता। जो मनुष्य सब जीवोंको अपने सदान समझकर बिसीपर प्रहार नहीं करता और कोपको अपने काममें रखता है, वह मनुष्यके परवान् सुखी होता है। जो सम्पूर्ण मृतोंका आराम है अर्थात् सबके सुख-सुलको अपना

ही मुख-बुद्धि समन्ता है तथा जो सब भूतोंको अपनेमें स्थित देखता है, उस गमनागमनसे रहित ज्ञानीकी गतिका पता लगाते समय देवता भी मोहमें पड़ जाते हैं। जो बात अपनेको अच्छी न लगे, वह दूसरोंके प्रति भी नहीं करनी चाहिये; यही धर्मका संक्षिप्त लक्षण है। मनुष्य कामनासे प्रेरित होकर ही इसके विपरीत बर्ताव करता है। माँगनेपर देने और इन्कार करनेसे, मुँह और बुद्धि पहुँचानेसे तथा प्रिय और अप्रिय करनेसे पुरुषको स्वयं जैसे हर्ष-शोकका अनुभव होता है, उसी प्रकार

दूसरोंके लिये भी समझे। जैसे एक मनुष्य दूसरोंपर आक्रमण करता है तो अवसर आनेपर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं; इसीको तुम अपने लिये धर्म-अधर्मके सम्बन्धमें दृष्टान्त समझो अर्थात् धर्मसे मुख और अधर्मसे बुद्धिकी प्राप्ति होती है—ऐसा निश्चय करो।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान् देवगुरु बृहस्पतिजी उस समय हमलोगोंके देखते-देखते स्वर्गको चले गये।

हिंसा और मांस-भक्षणकी निन्दा तथा मांस न खानेकी प्रशंसा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर, महा-तेजस्वी राजा युधिष्ठिरने वाण-शय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्मसे पुनः प्रश्न किया।

युधिष्ठिरने पूछा—महापते ! देवता, ऋषि और ब्राह्मण वैदिक प्रमाणके अनुसार सदा अहिंसा-धर्मकी प्रशंसा किया करते हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि मन, वाणी और क्रिया-ये भी हिंसाका ही आचरण करनेवाला मनुष्य किस प्रकार उसके दुःखसे छुटकारा पा सकता है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! ब्रह्मवादी पुरुषोंने (मनसे, वाणीसे तथा कर्मसे हिंसा न करना और मांस न खाना इन) चार उपायोंसे अहिंसा-धर्मका पालन बतलाया है। इनमेंसे एक अंगकी भी कमी हुई तो अहिंसा-धर्मका पालन नहीं होता। जैसे चार पैरोंवाले पशु तीन पैरोंसे नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार अहिंसा भी केवल तीन ही कारणोंसे नहीं टिक सकती। जैसे हाथीके पैरके चिह्नमें सभी प्राणियोंके पदचिह्न समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा-धर्ममें सभी धर्मोंका समावेश हो जाता है। इस तरह अहिंसाका धर्मतः स्वरूप बतलाया गया है। जीव मन, वाणी और क्रियाके द्वारा हिंसाके दोषसे निवृत्त होता है, किन्तु जो श्रमणः पहले मनमें, फिर वाणीमें और फिर क्रियाद्वारा हिंसाका त्याग करके कमी मांस नहीं खाता, वह तीनों प्रकारकी हिंसाके दोषसे मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवादी महात्माओंने हिंसा-दोषके तीन कारण बतलाये हैं—मन (मांस खानेकी इच्छा), वाणी (मांस खानेका उपदेश) और स्वाद (प्रत्यक्षरूपमें मांसका स्वाद लेना)। ये तीनों ही हिंसाके आधार हैं।

अब मैं मांस-भक्षणके दोष बता रहा हूँ। जो अविश्वेकी मनुष्य मोहवश मांस-भक्षण करता है, वह अत्यन्त नीच माना गया है। जैसे पिता और माताके संयोगसे पुत्रकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार हिंसा करनेसे पापी पुरुषको अनेकों पाप-

योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। जैसे जीमसे जब रसका ज्ञान होता है तो उसके प्रति वह आकृष्ट होने लगती है, उसी प्रकार मांसका आस्वादन करनेसे उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। शास्त्रोंमें भी कहा है कि विषयोंके आस्वादनसे उनके प्रति राग उत्पन्न होता है, जो चित्तको अपने वशमें कर लेता है। जिनका चित्त मांसका रस लेनेके लिये लोलुप होता है, वे मांसकी ऐसी प्रशंसा करते हैं जिसकी मन, वाणी और चित्तके द्वारा कल्पना भी नहीं हो सकती। मांसकी प्रशंसा करनेसे भी उसके खानेका पाप लगता है और उसका फल भी भोगना पड़ता है। कितने ही साधु पुरुष दूसरोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण देकर, अपने मांससे दूसरोंके मांसकी रक्षा करके स्वर्गलोकमें गये हैं। युधिष्ठिर ! इस प्रकार चार उपायोंसे जिसका पालन होता है, उस अहिंसाधर्मका प्रतिपादन किया गया। यह सम्पूर्ण धर्मोंमें श्रेष्ठतम है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! आपने अनेकों बार बतलाया कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि मांस खानेसे क्या हानि होती है ? और न खानेसे क्या लाभ पहुँचता है ? जो स्वयं पशुका वध करके उसका मांस खाता है या दूसरेके मारे हुए पशुका मांस भक्षण करता है, अथवा जो दूसरेके खानेके लिये पशुका वध करता है या खरीदकर मांस खाता है, उसको क्या फल मिलता है ?

भीष्मजीने कहा—राजन् ! मांस न खानेसे जो लाभ होता है, उसका यथार्थ वर्णन सुनो—जो सुन्दर रूप, सुडील शरीर, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सत्त्व, बल और स्मरणशक्ति प्राप्त करना चाहते थे, उन महात्माओंने हिंसाका सर्वथा परित्याग कर दिया था। इस विषयको लेकर ऋषियोंमें अनेकों बार वाद-विवाद हो चुका है। अन्तमें उन्होंने जो सिद्धान्त निश्चित किया है, उसे बता रहा हूँ, सुनो—जो पुरुष अतका पालन करता हुआ प्रतिमास अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान

करता है तथा जो बेचल मधु और मांसका परित्याग करता है, उन दोनोंको एक-सा ही फल मिलता है। सप्तर्षि, मातलिष्य और मरीचि आदि मनीषी महर्षि मांस न खानेकी ही प्रशंसा करते हैं। स्वायम्भुव मनुका यज्जन है कि 'जो मनुष्य न मांस खाता, न पशुकी हिंसा करता और न दूसरेसे ही हिंसा करता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंका मित्र है।' जो पुरुष मांसका त्याग कर देता है, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता। यह सबका विश्वासपात्र हो जाता है तथा साधु पुरुष सदा ही उसका आदर करते हैं। धर्मिणा नारदजी बहते हैं—'जो दूसरेके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उसे अवश्य ही दुःख उठाना पड़ता है।' बृहस्पतिजीका जन्म है—'जो मधु और मांस त्याग देता है, उसे दान, धन और तपस्याका फल प्राप्त होता है।' मेरा तो ऐसा विचार है कि एक मनुष्य यदि सौ वर्षोंतक प्रतिमत्त अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करता है और दूसरा मांस न खानेका नियम पालन करता है तो उन दोनोंका कार्य समान ही है। मधु और मांसका त्याग कर देनेसे मनुष्य सदा यज्ञ करनेवाला, सदा दान देनेवाला और सदा तप करनेवाला समझा जाता है। जो पहलेसे मांस खाता रहा हो और पीछे उसका सर्वथा परित्याग कर दे तो उसको जितना पुण्य होता है, उतना सम्पूर्ण वेदोंके अध्ययन और समस्त यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी नहीं हो सकता। जो विद्वान् तप जीवोंकी अमय दान कर देता है, वह इस संसारमें निःसंदेह प्राणदाता माना जाता है। इस प्रकार विद्वान् पुरुष अहिंसारूप परम धर्मकी प्रशंसा करते हैं। जैसे मनुष्यको अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियोंको अपने-अपने प्राण प्रिय जान पड़ते हैं अतः जो बुद्धिमान् और पुण्यात्मा हैं, उन्हें चाहिये कि सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने ही समान समझे। जब अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंकी भी मृत्युका मय बना रहता है तो जीवित रहनेकी इच्छावाले मरीग और निरपराध प्राणियोंकी, जिन्हें मांसपर जीविका चलातेवाले पापी पुरुष बलपूर्वक मार डालते हैं, क्यों न मय होता होगा? इसलिये तुम मांस त्याग देनेकी ही धर्म, स्वर्ग और सुखका सर्वोत्तम आधार समझो। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है। अहिंसासे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है। मांस घास, सक्की या पत्थरसे नहीं पैदा होता, वह जीवकी हत्या करनेपर ही मिलता है; अतः उसके खानेमें बहुत बड़ा दोष है। जो लोग स्वाहा (वेधयत) और स्वधा (वितुयत) का अनुष्ठान करते: यज्ञसिद्ध अमृतका भोजन करनेवाले तथा सत्य और सरलताके प्रेमी हैं, ये देवता हैं; वितु जो कुटिलता और असाध्यमाधयमें प्रवृत्त होकर सदा मांस-भक्षण किया करते हैं, उन्हें राक्षस समझना चाहिये।

जो मनुष्य मांस नहीं खाना, वह संवत्स्रुपं स्वान, भयंकर दुर्ग और गहन वनोंमें रात, दिन और संध्याके समय, घोरारों और सभाओंमें तथा हृषिकार उठाये हुए मनुष्यों, रावों और वृत्तिक पशुओंके बीचमें पड़ जानेपर भी रिशती नमको नहीं प्राप्त होता। इतना ही नहीं, वह समस्त प्राणियोंको राख देनेवाला और सबका विश्वासपात्र होता है। संसारमें न तो यह दूसरेके उद्देगमें डालता है और न स्वयं ही उद्दिग्ण होता है। जगत्में यदि मांस खानेवालोंका अभाव हो जाय तो पशुओंकी हिंसा करनेवाला भी कोई न रहे। हितक मनुष्य मांसखोरोंके लिये ही प्राणियोंका पथ करता है। यदि मांसको अमश्य समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें तो पशुओंकी हत्या स्वतः ही बंद हो जायगी। हिंसा करनेवालोंकी आयु शीघ्र होती है, इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको मांसका परित्याग कर देना चाहिये। जैसे यहाँ हितक पशुओंका लोग शिकार खाते हैं, उसी प्रकार जीवोंकी हिंसा करनेवाले भयंकर मनुष्योंके दूसरे जन्ममें सभी प्राणी बनेंगे पड़ते हैं। उस समय उन्हें कोई संवत्से बचानेवाला नहीं मिलता। लोभसे, बुद्धिके मोहसे, बल-वीर्यकी प्राप्तिके लिये अपना प्राणियोंके संसर्गमें आनेसे मनुष्यको अशर्ममें रचि हो जाती है। जो दूसरोंके मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है, वह जहाँ कहीं भी जन्म संता है, वँतसे नहीं रहने पाता। नियम पालन करनेवाले महर्षियोंने मांस-भक्षणके त्यागको ही धन, मय, आयु तथा स्वर्गकी प्राप्तिका प्रधान उपाय और परम कल्याणका साधन बतलाया है।

भुन्तोनन्दन । पूर्वकालमें मेने मारंभेयजोके मुलसे मांस खानेके जो दोष मुने हैं, उन्हें बता रहा हूँ; मुनो—जीवित रहनेको इच्छावाले प्राणियोंको मारकर अमया उनके स्वयं मर जानेपर उनका मांस खाता है, वह उन प्राणियोंका हत्यापरा ही समझा जाता है। जो मांस खरोदता है वह धनसे, जो खाता है वह उपभोगसे तथा जो मारनेवाला है वह शस्त्रद्वारा करके या कौसी रणायकर पशुओंकी हिंसा करता है। इस प्रकार तीन तरहसे प्राणियोंका पथ होता है। जो मांसको स्वयं तो नहीं खाता, पर खानेवालेका अनुमोदन करता है, वह भी मान-दोषके कारण मांस-भक्षणसे पापका भागी होता है। इसी प्रकार जो मारनेवालेको प्रोत्साहन देता है, उसे भी हिंसाका पाप समझा है। जो मनुष्य मांस न खाकर सब जीवोंसे दया करता है, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता, बल्कि शीघ्रजीवी और सदा मरीग होता है। हमने गुना है कि मुने-दान, मो-दान और भूमि-दान करनेसे जो धर्म प्राप्त होता है, मांसका भक्षण न करनेसे उतने भी जितने धर्म प्राप्त होते हैं। जो मांसखोरोंके लिये पशुओंके

वह पुरुषोंमें अधम है। हिंसाका अधिक दोष घातकको ही लगता है, मांस खानेवालेको नहीं। जो अन्यायी मनुष्य वैदिक यज्ञ-याग आदिके नामपर मांसके लोभसे प्राणियोंकी हिंसा करता है, वह नरकगामी होता है। जो पहले मांस खानेके वाद फिर उससे निवृत्त हो जाता है, उसको भी महान् धर्मकी प्राप्ति होती है; क्योंकि वह पापसे पीछे हटता है। जो मनुष्य हत्याके लिये पशु लाता है, जो उसे मारनेकी अनुमति देता है, जो उसका बध करता है तथा जो खरीदता, बेचता, पकाता और खाता है, वे सब-के-सब खानेवाले ही समझे जाते हैं। जो मनुष्य परम शान्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहता हो, उसे दूसरे प्राणियोंके मांसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। मांस न खानेसे सब प्रकारका सुख मिलता है। जो सौ वर्षोंतक कठोर तपस्या करता है तथा जो केवल मांसका परित्याग कर देता है, वे दोनों मेरी दृष्टिमें एक समान हैं। इस प्रकार अहिंसा ही सबसे उत्तम धर्म है। जो महात्मा इसका पालन करते हैं, वे स्वर्गके निवासी होते हैं। जो सदा धर्मका आचरण करते हुए बाल्यकालसे ही मधु, मांस और मदिराका त्याग कर देते हैं, वे मुनि कहलाते हैं। जो पुरुष मांस-भक्षणके त्यागरूप इस अहिंसा-धर्मका स्वयं आचरण करता और दूसरोंको उपदेश देता है, वह पहलेका महान् दुराचारी होनेपर भी कदापि नरकमें नहीं पड़ता। जो मांस-भक्षणके त्यागरूप इस परम पवित्र एवं ऋषियोंद्वारा प्रशंसित विधिके सदा पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इसके पाठ और श्रवण करनेपर आपत्तिमें पड़ा हुआ पुरुष आपत्तिसे, कंदमें पड़ा हुआ कंदसे, रोगी रोगसे और दुखी दुःखसे छुटकारा पा जाता है। इसके प्रभावसे मनुष्य तिर्यग्-योनिमें नहीं पड़ता तथा उसे सुन्दर रूप, सम्पत्ति और महान् धराकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने ऋषियोंकी बतायी हुई यह मांस-त्यागकी विधि बतलायी है।

युधिष्ठिरने कहा—पितामह! बड़े खेदकी बात है कि संसारके ये निर्दयी मनुष्य महान् राक्षसोंकी तरह अच्छे-अच्छे पदार्थोंका परित्याग करके मांसका त्वाद लेना चाहते हैं। ये मालपुत्र, तरह-तरहके साग और रसीली मिठाइयोंको भी उतनी रुचिसे नहीं खाना चाहते, जितनी रुचि मांसके लिये रखते हैं। अतः मैं मांस न खानेसे होनेवाले लाभ और उसे खानेसे होनेवाली हानियोंको पुनः सुनना चाहता हूँ।

भीष्मजीने कहा—बेटा! मांस न खानेमें बहुत-से लाभ हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ, सुनो—जो दूसरेका मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और

निर्दयी मनुष्य कोई नहीं है; जगत्में अपने प्राणोंसे अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है; इसलिये मनुष्य जिस तरह अपने ऊपर दया चाहता है, उसी तरह उसे दूसरोंपर भी दया करनी चाहिये। मांस-भक्षण करनेसे महान् पाप होता है और उसे न खानेसे बहुत बड़ा पुण्य होता है। समस्त जीवोंपर दया करनेके समान इहलोक और परलोकमें कोई कार्य नहीं है। दयालु मनुष्यको कभी भयका सामना नहीं करना पड़ता। दयालु और तपस्वीके लिये यह लोक और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। जो मनुष्य दयापरायण होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय-दान करता है, उसे सब प्राणी अभयदान देते हैं। वह घायल हो, लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, पानीके बहावमें खिचकर बहा जाता हो, आहत हो रहा हो अथवा किसी भी सम-विषम अवस्थामें पड़ा हो, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं। हिंसक पशु, पिशाच और राक्षस भी उसके प्राण नहीं लेते। जो मनुष्य दूसरे जीवोंको भयसे बचाता है, वह स्वयं भी भयका अवसर आनेपर उससे छुटकारा पा जाता है। प्राण-दानके समान दूसरा कोई दान न हुआ है, न होगा। मृत्यु किसी भी प्राणीको अभीष्ट नहीं है; क्योंकि मृत्युकालमें सभी जीव कांप उठते हैं। इस संसार-समुद्रमें समस्त प्राणी सदा गर्भवास, जन्म और बुढ़ापा आदिके दुःखसे दुखी होकर चारों ओर भटकते रहते हैं। इसके सिवा मृत्युका भय भी उन्हें बेचैन किये रहता है। गर्भमें आये हुए प्राणी मल-मूत्रके बीचमें रहकर क्षार, अम्ल और कटु आदि रसोंसे, जिनका स्पर्श अत्यन्त कठोर और दुःखदायी होता है, कष्ट पाते रहते हैं। मांसोलुप जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते हैं। वे बार-बार शस्त्रोंसे काटे और पकाये जाते हैं। उनकी यह कुर्बानि प्रत्यक्ष देखी जाती है। वे अपने पापोंके कारण कुम्भीपाक नरकमें डाले जाते और भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेकर गला घोट-घोटकर मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें बारंबार संसारचक्रमें भटकना पड़ता है।

इस भूमण्डलपर अपने आत्मासे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं है, इसलिये सब प्राणियोंपर दया करे और सबको आत्मभावसे देखे। जो मनुष्य जीवनभर किसी भी जीवका मांस नहीं खाता, उसे निःसंदेह स्वर्गलोकमें श्रेष्ठ स्थान मिलता है। जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंके मांस खाते हैं, वे भी दूसरे जन्ममें उन प्राणियोंद्वारा भक्षण किये जाते हैं। इस विषयमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर! (जितका बध किया जाता है, वह प्राणी कहता है—) 'मां स भक्षयते यस्माद् भक्षयिष्ये तमप्यहन्' अर्थात् 'आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊँगा।' यही मांसका मांसत्व है—इसे ही मांस शब्दका तात्पर्य समझो। इस जन्ममें

जिस जीवकी हिंसा होती है, वह दूसरे जन्ममें पहले घातकको मारता है, फिर मांस खानेवाला उसके हाथसे मारा जाता है। जो दूसरोंकी निन्दा करता है, वह स्वयं भी दूसरोंके क्रोध और द्वेषका पात्र होता है। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम संपन्न, अहिंसा परम दान, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम यश, अहिंसा परम फल, अहिंसा परम मित्र और अहिंसा परम सुख है। सम्पूर्ण यशमें दान किया जाय, सब तोषोंमें द्वेषको

सगामो जाय और सब प्रकारके शानका फल प्राप्त हो तो भी अहिंसाके साथ इनकी खुशना नहीं हो सकती। जो हिंसा नहीं करता उसकी तपस्या असम्य होती है, उसे सबदा यश करनेका फल मिलता है, हिंसा न करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके माता-पिताके समान है। युधिष्ठिर ! यह अहिंसाका फल बत-साया गया। अभी इसके भी अधिक उदाहरण फल होता है। अहिंसासे होनेवाले साधनको सबोंमें भी वर्णन नहीं हो सकता।

व्यासजीकी एक कीड़ेपर कृपा

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! जो योद्धा महान् संप्राम-में जाकर इच्छा या अनिच्छासे प्राण-त्याग कर देते हैं, उनकी क्या गति होती है ? आप जानते हैं प्राण-त्याग करना कितना कठिन है। कोई उप्रतिकी अवस्थामें हो या अवनतिकी, शुभ समयमें हो या अशुभ समयमें; किंतु मरना नहीं चाहता। इसका क्या कारण है ? आप सर्वज्ञ हैं, यतानेकी कृपा कीजिये।

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस संसारके प्राणी उप्रतिकमें हों या अवनतिकमें, शुभमें हों अथवा अशुभमें जिस किसी भी अवस्थामें हों, उसीमें सुख मानते हैं, मरना नहीं चाहते, इसका कारण यतला रहा है, सुनो—इस विषयमें भगवान् व्यास और एक कीड़ेका संवादरूप प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, वही सुनो सुना रहा है। पहलेकी बात है, ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़ेको गाड़ी चलानेके रास्तेसे बड़ी तेजीके साथ भागाता देखा। व्यासजी सम्पूर्ण प्राणियोंकी गतिके ज्ञाता और भाषाको समझनेवाले हैं। उन्होंने उस कीड़ेसे इस प्रकार पूछा—'कीट ! आज तुम बहुत दरे हुए और जतायलें बिषायी देते हो, कहो, कहीं बीड़े जा रहे हो ? कहति सुनहें मय प्राप्त हुआ है !'

कीड़ेने कहा—भगवन् ! कोई बहुत बड़ी बेलगाड़ी आ रही है, इसीकी धरपरदाहट सुनकर मुझे भय हो गया है। इसकी आवाज बड़ी डरावनी है, यह जब कानोंमें पड़ती है तो ऐसा संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले, इसीलिये तेजीसे भाग रहा हूँ। यह वैलिये, बंसीपर चानुचकी मार पड़ रही है, वे मारी बोम्ब लिये हाँकते हुए इधर आ रहे हैं। मुझे उनकी आवाज बहुत निरक्त सुनायी पड़ती है। गाड़ीपर बैठे हुए मनुष्योंके भी नावा प्रकारके शब्द कानोंमें पड़ रहे हैं। हमारे-जैसे कीड़ेके लिये इस आवाजको धर्म-

पूर्वक सुन सकना कठिन है, अतः इस दारुण भयसे अपनी रक्षा करनेके लिये मैं यहाँसे भाग रहा हूँ। भौत प्रत्येक प्राणीके लिये दुःखदायिनी होती है। अपना जीवन सबको बुल्लंभ जान पड़ता है। कहीं ऐसा न हो कि मैं सुलसे दुःखमें पड़ जाऊँ; इसी भयसे पलायन कर रहा हूँ।

व्यासजीने कहा—कीट ! सुनहें कहीं सुख है ? तुम तो तिर्यक्योनिमें पड़े हुए हो। मेरी समझमें मर जाना ही तुम्हारे लिये सुलको बात है। तुम शम्भ, स्पर्श, रस, गन्ध तथा छोटै-बड़े भोगोंका अनुभव नहीं कर सकते; अतः तुम्हारा तो मरना ही अच्छा है।

कीड़ेने कहा—भगवन् ! जीव सभी योनिमें सुलका अनुभव करते हैं। मुझे भी इस योनिमें सुल मिलता है और वही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। वही भी इस शरीरके अनुसार तप प्रकारके विषय उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों और स्थावर प्राणियोंके भोग असम-असम हैं। पहले जन्ममें मैं एक बहुत धनी शूद्र था। ब्राह्मणोंके प्रति मेरे मनमें तनिक भी आदरका भाव न था। मैं परतें सिंहेका बंसुत और ध्यानखोर था। सबसे तीरे वचन बोलना, बृद्धिमातीके साथ लोगोंको ठगना और संसारभरसे द्वेष रहना—यह मेरा स्वभाव हो गया था। मूठ बोलकर लोगोंको धोला देना और दूसरोंका माल हड़प लेना—यही मेरा काम था। मैं इतना निंद्यो था कि मात्स्यवंश धरपर आये हुए अतिथियों और आश्रित जनोंको भोजन कराने बिना ही देखा स्वार सेनेके इच्छासे अरेला ही भोजन कर लेता था। मजके समय अमय पानेकी इच्छासे कितने ही शरणापी मेरे पास आते; किंतु मैं उन्हें शरण सेने योग्य गुराँदात स्वानमें पहुँचाकर भी अकस्मात् वृत्ति निकाल देता, उनकी रक्षा नहीं करता था। दूसरे मनुष्योंके पास धन-धान्य, सुन्दरी स्त्री, अच्छी-अच्छी तयारियाँ मनुष्य बराह और जन्तु लखनी

देखकर मैं अकारण ही उनसे जलता रहता था। दूसरोंका गुण देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। कित्तीका श्रेष्ठपद मुझे नहीं दिया जाता था। मैं अपनी इच्छाओंका सुलाभ था। दूसरोंके धर्म, अर्थ और कामका विनाश करनेको सवा ही उद्यत रहता था। पूर्वजन्ममें मेरे द्वारा प्रायः क्रूरतापूर्ण कर्म हुए हैं। उनकी याद आनेसे मुझे बड़ा परमात्ताप होता है। उस समय मुझे शुभ कर्मोंके फलका ज्ञान न था। जीवनमें मैंने केवल अपनी बड़ी माताकी सेवा की थी तथा एक दिन अपने घरपर आये हुए एक ब्राह्मण ब्रतियिका, जो अपने जातीय गुणोंसे उत्कृष्ट थे, स्वागत-सत्कार किया था। उसी पुण्यके प्रभावसे मुझे आजतक पूर्वजन्मकी स्मृति यकी हुई है। अब मैं कोई शुभ कर्म करके भविष्यमें सुख पाना चाहता हूँ। अतः जिससे मेरा फलपान हो वह उपाय आप ही चललाइये। आपहीके मुँहसे मैं उसे सुनना चाहता हूँ।

व्यासजीने कहा—फोट! तुम जिस शुभ कर्मके प्रभावसे तिर्यक्योनिमें जन्म लेकर की मोहित नहीं हुए हो

वह और कुछ नहीं, मेरा दर्शन ही है। मैं अपने तपोबलसे केवल दर्शनमात्र लेकर तुम्हारा उद्धार कर दूँगा। तपोबलसे बड़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। मैं जानता हूँ, अपने पूर्वकृत पापोंके कारण तुम्हें कीड़ेकी योनिमें आना पड़ा है। यदि इस समय तुम्हारी धर्मके प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। देवता और तिर्यक्योनिमें पड़े हुए प्राणी इस कर्मभूमिमें किये हुए कर्मोंका ही फल भोगते हैं। अज्ञानी अनुप्यका धर्म भी कामनाको लेकर ही होता है तथा वे कामनाकी सिद्धिके लिये ही गुणोंको अपनाते हैं। अस्तु, एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवनमें सवा सूर्य और चन्द्रमाकी पूजा किया करते हैं तथा लोगोंको पवित्र कथाएँ सुनाते रहते हैं। उन्हींके यहाँ तुम पुत्ररूपसे जन्म लोगे और विषयोंको पञ्चभूतोंका विकार मानकर अनासक्त भावसे उनका उपभोग करोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्मविद्याका उपदेश करूँगा, अथवा तुम जिस लोकमें जाना चाहोगे, यहाँ तुम्हें ले जाऊँगा।

कोड़ेका क्रमशः ब्राह्मण-योनिमें जन्म लेकर ब्रह्मलोक प्राप्त करना

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर उम कीड़ेने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और बीच रास्तेमें आकर यह ठहर गया। इनमेंसे यह विद्याल छाकड़ा यहाँ आ पहुँचा और उसके पहिलेसे देवकर उम कीड़ेने प्राण त्याग दिया। तत्पश्चान् वह क्रमशः गार्ही, गोघा मूत्रद, मूग, पक्षी, चाण्डाल, गूद और वैश्यकी योनिर्धामें जन्म लेता हुआ क्षत्रिय-जातिमें उत्पन्न हुआ। उस समय यह मर्त्युष ध्यासजीका दर्शन करनेके लिये बनमें गया और उन्हें पहचानकर उनके चरणोंमें गिर पड़ा। इसके बाद हाथ जोड़कर बोला—'भगवन्! आज मुझे यह स्थान मिला है, जिसकी कहीं सुलना नहीं है। इसे मैं उम जन्मोंसे पाना चाहना था। यह आपहीकी कृपा है कि मैं अपने दोषसे फोट्टा होकर भी आज राजकुमार ही गया। अब सीनेकी सान्वाधोमि मुनोनिन अत्यन्त बन्वान् यज्ञराज मेरी सवारीमें रहते हैं। मैं सुन्दर गहनोंके भीतर सुन्दर मय्याधोपर बड़े सम्मानके साथ भ्रमण करता हूँ। आप महान् तेजस्वी और मत्यप्रतिभ हैं। आपके ही प्रसादसे आज मैं कीड़ेने राजपूत हो गया हूँ। महाप्राज्ञ! आपको नामस्कार है। आपके तपोबलके प्रभावसे मुझे यह राजपद प्राप्त हुआ है; अतः आज्ञा दीजिये मैं आपकी क्या सेवा करूँ?'



व्यासजीने कहा—राजन्! आज तुमने अपना वाणीसे

मेरा भलोमति स्तवन किया है। अमीतः तुम्हें अपनी कौट-योनिकी कल्पित स्मृति बनी हुई है। तुमने पूर्वजन्ममें अर्धपरायण, नृशंस थीर आततायी गूढ़ होकर जो पाप संवित किया था, उसका सर्वथा नाम नहीं हुआ है। कौट-योनिमें जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा श्रांन किया, उसी पुण्यका फल है कि तुम शशिय हुए और आज जो तुमने मेरी पूजा की इससे तुम्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होगी। राजकुमार ! तुम नाना प्रकारके मुल भोगकर अन्तमें पौ और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये संग्रामभूमिमें अपने प्राणोंकी आहुति बोगे। तदनन्तर, ब्राह्मणरूपमें प्रवृत्त ब्रह्मिणावाले अनेकों यत्नोंका अनुष्ठान करके अविनाशी ब्रह्मस्वरूप होकर अशय आनन्दका अनुभव करोगे।

भीष्मजी कहते हैं—इस प्रकार अपने पूर्वजन्मका स्मरण करनेवाला वह कौट अथ शत्रिय-योनिमें उत्पन्न हो शत्रुधर्मका पातन करने लगा। तत्परधातु उसने बड़ी भारी तपस्या आरम्भ की। धर्म और अर्थके सत्यको जाननेवाले उस राजकुमारकी उग्र तपस्या देखकर विप्रवर शीघ्ररूप-हृत्पायन व्यासजी उसके पास आये और कहे सगे—'कौट ! प्राणियोंकी रक्षा करना ही शत्रियोंका धर्म है। तुम गुप्त और अशुभका शान प्राप्त करो तथा अपने मन और इन्द्रियोंको धारण करके भलोमति प्रजाका पातन करो। उत्तम भोगोंका शान करते हुए अपने अशुभ बोधोंका भाजन करो, प्रगल्भ रहो और आत्माका ज्ञान प्राप्त करो। आजीवन स्वधर्मका पातन करते रहो। तदनन्तर, शत्रिय-शरीरका त्याग करके ब्राह्मणत्वको प्राप्त करोगे।'

युधिष्ठिर ! महर्षि व्यासकी बात सुनकर यह राजकुमार प्रजाका धर्मपूर्वक पातन करने लगा। प्रजा-पातनरूप धर्मका

आचरण करते हुए उसने दोड़े ही दिनोंमें (रणभूमिमें) शरीर त्याग दियाऔर दूसरे जन्ममें वह ब्राह्मणके घर उत्पन्न हुआ। यह जानकर महाप्राप्त्यी व्यासजी पुनः उसके पास आये और बोले—'विप्रवर ! अब तुम्हें किसी प्रकारका भय नहीं होगा चाहिये। उत्तम कर्म करनेवाला उत्तम जातिमें और पाप करनेवाला पाप-योनिमें जन्म लेता है। मृत्यु भंसा पाप करता है, उसके अनुसार ही जो फल भोगना पड़ता है। अतः अब तुम मृत्युके भयसे न डरो। हाँ, तुम्हें धर्मके सोपका भय अवश्य होना चाहिये; इसलिये उत्तम धर्मका आचरण करते रहो।'

कौटने कहा—भगवन् ! आपकी कृपामें मुझे अधि-काधिक मुक्तकी अवस्था प्राप्त होती गयी है। आज धर्ममूलक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष्ट हो गया।

भीष्मजी कहते हैं—इस प्रकार भगवान् व्यासके कथनानुसार उस कौटने दुर्गम ब्राह्मणत्वको पाकर पृथ्वीकी संकड़ों यत्नपूर्वकें प्रकट कर दिया (अर्थात् उसने संकड़ों यत्न किये)। तदनन्तर, ब्रह्मवेत्ताप्रतिमें धेष्ठ होकर उसने ब्रह्मजीका सातोष्य प्राप्त किया। व्यासजीके कथनानुसार उसने स्वधर्मका पातन किया था, उगीका यह फल हुआ कि वह ब्रह्मलोकमें जाकर सनातन ब्रह्ममें सीन हो गया। युधिष्ठिर ! (शत्रिय-योनिमें उस कौटने मुष्ट कर्मके प्राण-त्याग किया था, इसलिये उसे उत्तम गतिभी प्राप्ति हुई।) इसी प्रकार जो प्रधान-प्रधान शत्रिय अपनी शक्तिका परिष्कष देते हुए इस रणभूमिमें मारे गये हैं, वे भी पुण्यमयी गतिको प्राप्त हुए हैं; अतः उनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये।

व्यास-मंत्रेय-संवादमें शान, तप आदिकी प्रशंसा

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! विद्या, तप और शान—इनमेंसे कौन-सा कर्म धेष्ठ है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें शीघ्ररूप-हृत्पायन व्यास और मंत्रेयके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। एक समयकी बात है, भगवान् शीघ्ररूप-हृत्पायन वेदव्यासजी गुप्तरूपसे विचरते हुए काशीमें जा पहुँचे। वहाँ मुनियोंकी मण्डलीमें मुनिवर मंत्रेयजी बैठे हुए थे। जब व्यासजी उनके पास गये तो मंत्रेयजीने उन्हें परधान लिया कि वे कोई महात्मा हैं फिर उनका विधिजन्

पूजन करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वह उत्तम, सामवायक और सबकी रक्षिके अनुकूल अन्न भोजन करके महामना व्यासजी बहुत संतुष्ट हुए। फिर जब कृत्ति चलने लगे तो कुछ मुत्तकराये। उन्हें मुत्तकराते देस मंत्रेयने कहा—'धर्मानन्द ! मैं आपके प्रथम करके पूछता हूँ, आपने इत प्रकार मुत्तकरातेका क्या कारण है ?'

व्यासजीने कहा—मंत्रेयजी ! मैंने अपने घरों अतिरुष्ट और अतिवादिता श्रांन किया है। अर्थात् आपकी जो स्थिति है वह अनाचारक कर्मके बिना प्राप्त होनेवाली नहीं

है, किंतु आपको वह सहज ही प्राप्त दिखायी देती है। यही जानकर मुझे विस्मययुक्त हँसी आयी है। शास्त्रविधिके अनुसार दिया हुआ थोड़ा भी दान महान् फल देनेवाला होता है। आपने ईर्ष्यारहित हृदयसे भूखे-प्यासे प्राणियोंको दान दिया है। मैं भूखा और प्यासा था, ऐसी स्थितिमें मुझे अन्न देकर आपने तृप्त किया। इस पुण्यके प्रभावसे आपने महान् यज्ञोंद्वारा प्राप्त होनेवाले बड़े-बड़े लोकोंपर विजय पायी है। अतः मैं आपके पवित्र दानसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपका दान पुण्यका ही दान है और आपका दर्शन भी पुण्यका ही दर्शन है। इस दानरूप पुण्यके प्रभावसे ही आपके शरीरसे पवित्र गन्ध निकल रही है। तात ! दान करना तीर्थस्नान और वैदिक धर्मकी पूर्तिसे भी बढ़कर है। जितने पवित्र कर्म हैं, उन सबमें दान ही सबसे बढ़कर पवित्र और कल्याणकारी है। आप जिन-जिन वेदोपेत उत्तम कर्मोंकी प्रशंसा करते हैं, उन सबमें दान ही श्रेष्ठ है; इसमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है। दाताओंने जो उत्तम मार्ग बना दिया है, उसीसे मनीषी पुरुष चलते हैं। दान करनेवाले प्राणदाता समझे जाते हैं। उन्हींमें धर्म प्रतिष्ठित है। जैसे देवोंका स्वाध्याय, इन्द्रियोंका संयम और सर्वस्वका त्याग उत्तम है, उसी प्रकार दान भी इस संसारमें अत्यन्त उत्तम माना गया है। महामते ! आपको इस दानके कारण उत्तम सुखकी प्राप्ति होगी। बुद्धिमान् मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है—यह बात हमलोगोंके सामने प्रत्यक्ष है। आप-जैसे लोग धन पाते हैं तो उससे दान और यज्ञ करके सुखी होते हैं। किंतु जो विषय-सुखोंमें आसक्त हैं, वे सुखसे दुःखमें पड़ते हैं और जो तपस्या आदिके द्वारा दुःख उठाते हैं, उन्हें दुःखसे ही सुखकी प्राप्ति होती देखी जाती है। इस जगत्में विद्वानोंने मनुष्यके आचरण तीन प्रकारके बतलाये हैं—किसीमें पुण्य होता है, किसीमें पाप होता है और किसीमें दोनोंका अभाव रहता है। ऋहानिष्ठ पुरुषका आचरण न पुण्यमय माना जाता है, न पापमय। उनके कर्ममें दोनोंका ही अभाव रहता है। जो यज्ञ, दान और तपस्यामें प्रवृत्त रहते हैं, वे पुण्यकर्म करनेवाले हैं। जो प्राणियोंसे द्रोह करते हैं, वे पापाचारी समझे जाते हैं। जो मनुष्य दूसरोंके धन चुराते हैं, वे दुःखकी प्राप्ति होते और नरकमें पड़ते हैं।

मंत्रेयने कहा—मुने ! आपने दानके सम्बन्धमें जो बातें बतायी हैं, वे दोषरहित और निर्मल हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आपने विद्या और तपस्यासे अपने अन्तःकरणको परम पवित्र बना लिया है। आप शुद्धचित्त हैं, इसलिये आज आपके समागमसे मेरे लिये महान् लाभ पहुँचा है। जब मैं चारोंद्वारा बुद्धिसे विचार करके देखता हूँ तो आप

अत्यन्त समृद्ध तपस्वी जान पड़ते हैं। आपके दर्शनसे मेरा अम्युदय होगा। आपने यहाँतक आनेका कष्ट किया, इसे मैं आपकी कृपा समझता हूँ तथा अपने स्वामाविक कर्मको भी इसमें कारण मानता हूँ। ब्राह्मणत्वके तीन कारण माने गये हैं—तपस्या, शास्त्रज्ञान और विशुद्ध ब्राह्मणकुलमें जन्म। जो इन तीन गुणोंसे युक्त है, वही सच्चा ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मणके तृप्त होनेपर देवता और पितर भी तृप्त हो जाते हैं। विद्वानोंके लिये ब्राह्मणसे बढ़कर दूसरा कोई मान्य नहीं है। ब्राह्मण न हों तो यह सारा जगत् अज्ञानान्धकारसे आच्छन्न हो जाय, किसीको कुछ सूझ न पड़े तथा चारों वर्णोंकी स्थिति, धर्म-अधर्म और सत्य-असत्य कुछ भी न रह जाय। जैसे मनुष्य उत्तम खेतमें बीज बोनेपर उसका फल पाता है, उसी प्रकार विद्वान् ब्राह्मणको दान देकर दाता पुरुष उत्तम फलका उपभोग करता है। यदि विद्या और सदाचारसे सम्पन्न ब्राह्मण दान न स्वीकार करें तो धनवानोंका धन ही व्यर्थ हो जाय। मूर्ख मनुष्य यदि किसीका अन्न खाता है तो वह उस अन्नको नष्ट करता है (अर्थात् दाताको उसका कुछ फल नहीं मिलता)। इसी प्रकार वह अन्नभी उस मूर्खको नष्ट कर डालता है। जो सुपात्र होनेके कारण उस अन्न (और दाता) की रक्षा करता है, उसकी भी वह अन्न रक्षा करता है। जो मूर्ख दानके फलका हनन करता है, वह स्वयं भी मारा जाता है। विद्वान् ब्राह्मण यदि अन्न ग्रहण करता है तो वह उस अन्नका स्वामी होता है अर्थात् उसको पचानेकी शक्ति रखता है तथा वह ईश्वर (समर्थ) होनेके कारण दाताके लिये उसके दानके अनुरूप उत्तम फल उत्पन्न करता है। यदि इतर मनुष्य किसीका अन्न ग्रहण करते हैं तो वे दाताकी संतान समझे जाते हैं। अतः अयोग्य व्यक्ति-को दान लेनेसे इस सूक्ष्म दोषकी प्राप्ति होती है; इसलिये उसे किसीका दान नहीं लेना चाहिये। दान देनेवालेको जो पुण्य होता है, वही पुण्य दान लेनेवाले योग्य अधिकारीको भी मिलता है; क्योंकि दोनों एक-दूसरेके उपकारक होते हैं। एक पहिलेसे गाड़ी नहीं चलती—प्रतिग्रहीताके बिना दाताका दान नहीं सफल हो सकता—ऐसा ऋषियोंका कथन है। जहाँ विद्वान् और सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं, वहाँ दिये हुए दानका फल इहलोक और परलोकमें भी मिलता है। जो ब्राह्मण विशुद्ध कुलमें उत्पन्न, तपस्यामें लगे रहनेवाले, दाता तथा अध्ययन-सम्पन्न हैं, वे ही सदा पूज्य माने गये हैं। ऐसे सत्पुरुषोंने जित मार्गका निर्माण किया है, उससे चलनेवालेको कभी मोह नहीं होता।

भौष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! मंत्रेयके इस प्रकार कहनेपर भगवान् वेदव्यास बोले—'आप बड़े सौभाग्यशाली

हैं जो ऐसी बातोंका ज्ञान रखते हैं। आपको इस तरहकी बुद्धि भी सौभाग्यसे ही प्राप्त हुई है। संसारके लोग उत्तम गुणवाले पुरुषोंकी ही अधिक प्रशंसा करते हैं। बड़े आनन्दकी बात है कि रूप, अवस्था और सम्पत्तिका अभिमान आपके मनपर तनिक भी प्रभाव नहीं डालते। इसे आप अपने ऊपर देवताओंका अनुग्रह समझिये। अस्तु, अब मैं वानसे भी उत्तम धर्मका वर्णन करता हूँ। इस जगत्में जितने शास्त्र और जो-जो प्रवृत्तियाँ हैं, वे सब वेदके ही आधारपर क्रमशः प्रवृत्तित हुई हैं। मैंने सुना है कि भन्व्य तप और विद्यासे ही महान् पदको प्राप्त होता है तथा तपके ही प्रभावसे वह अपने पापोंका नाश करता है। पृथ्वी जिस-जिस अमितायाकी सिद्धिके लिये तपस्यामें प्रवृत्त होता है, वह सब उसे तप और विद्यासे प्राप्त हो जाती है। जिससे संयोग होना, जिसको पराजित करना, जिसे पाना और जिसे टालना कठिन है, वह सब तपस्यासे साध्य हो जाता है; क्योंकि तपस्याका बल सबसे बड़ा है। शराबी, चोर, गर्महृत्कारा और गुरुकी स्तुतिसे व्यभिचार करनेवाला पापी भी तपस्यासे सर जाता है, अपने पापोंसे छुटकारा पा जाता है। जो सब प्रकारकी विद्याओंमें प्रवीण है वही नेत्रवान् है और तपस्वी चाहे जिस प्रकारका हो वह भी

नेत्रवान् ही समझनेयोग्य है। इन दोनोंकी सदा ममत्कार करना चाहिये। जो विद्याके धनी और तपस्वी हैं, वे सब पूज्य हैं तथा वान देनेवाले भी इस लोकमें धन और परलोकमें सुख पाते हैं। संसारके पुष्पात्मा पुरुष अन्न-दान देकर इन लोकमें भी सुखी होते हैं और मृत्युके बाद ब्रह्मलोक तथा अन्य शक्तिशाली लोकोंको प्राप्त करते हैं। दानों पुरुष स्वयं पूजित और सम्मानित होते हुए दूसरोंका पूजन और सम्मान करते हैं। वे जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोग उनके सामने भक्तकः झुकते हैं। मैत्रेयी! आप तरुण और व्रतधारी हैं, सदा धर्मपालनमें सचे रहिये और गृहस्थोंके लिये जो सबसे उत्तम एवं मुख्य कर्तव्य है, उसे ध्यान देकर सुनिये। जिस वृत्तमें पति अपनी पत्नीसे और पत्नी अपने पतिसे संतुष्ट रहती हो वहाँ सदा कल्याण होता है। जिस प्रकार पत्नीसे शरीरकी मेल धुल जाती है और अग्निकी प्रभासे अग्न्यकार सूर हो जाता है, उसी प्रकार वान और तपस्यासे मनुष्यका कारा पाप नष्ट हो जाता है। आपका कल्याण ही, अब मैं अपने आधम-पर जाता हूँ। मैंने जो कुछ बताया है उसे धार रतियेगा, इससे आपका कल्याण होगा।'

शाण्डिली और सुमनाका संवाद—पतिव्रत-धर्मका वर्णन

शुद्धिष्ठिरने कहा—पितामह! आप सम्पूर्ण धर्म-वेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं, अतः अब मैं आपके मुखसे साध्वी स्त्रियोंके सदाचारका विषय सुनना चाहता हूँ। आप उसका वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—एक समयकी बात है, सब प्रकारके तस्वीकों जाननेवाली, सर्वश एवं मन्त्रिणी शाण्डिली देव-लोकमें गयी। वहाँ कंकेयी सुमना पहलेसे मौजूब थी। उसने शाण्डिलीको देखकर उससे पूछा—'कल्याणी! तुमने किस आधार और ब्रतोंका पालन किया था, जिससे समस्त पापोंका नाश करके तुम इस देवलोकमें आयी हो? इस समय अपने तेजसे तुम अग्निकी च्वासाके समान बेबीप्यमान हो रही हो। तुम्हें देखकर अनुमान होता है कि थोड़ी-सी तपस्या, साधारण वान या छोटे-मोटे नियमोंका पालन करके तुम इस लोकमें नहीं आयी हो; अतः अपनी साधनाके सम्बन्धमें तुम सच्ची-सच्ची बात बताओ।'

जब सुमनाने इस प्रकार मधुर वाणीमें पूछा तो मनोहर मुखरानवाली शाण्डिलीने धीरेसे उत्तर दिया—'देवि! मैं गेदना वस्त्र पहनने, बत्कल धारण करने, भूँड़ मुड़ाने या बड़ी-



बड़ी जटाएँ रखानेसे इस लोकमें नहीं आयी हूँ। मैंने सदा सावधान रहकर अपने पतिदेवके प्रति मुँहसे कभी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं। मैं सदा सास-ससुरकी आज्ञामें रहती और देवता, पितर तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें प्रमाद नहीं करती थी। किसीकी चुगली नहीं खाती थी। चुगली की आदत मुझे बिल्कुल पसंद न थी। मैं घरका दर-वाजा छोड़कर अन्यत्र नहीं खड़ी होती और देरतक किसीसे बात नहीं करती थी। मैंने कभी छिपकर या सामने किसीसे अश्लील परिहास नहीं किया तथा मेरे द्वारा किसीका अहित भी नहीं हुआ है। यदि मेरे स्वामी किसी कामसे बाहर जाकर फिर घरको लौटते तो मैं उठकर उन्हें बैठनेके लिये आसन देती और एकाग्रचित्तसे उनकी पूजा करती थी। जो अन्न मेरे स्वामी नहीं खाना चाहते, जिस भक्ष्य, भोज्य या लेह्य (चटनी) आदिको वे नहीं पसंद करते, उन सबको मैं भी त्याग देती थी। सारे कुटुम्बके लिये जो कुछ कार्य आ पड़ता, वह सब मैं सदैव ही उठकर कर-करा लेती थी। यदि किसी आवश्यक

कार्यवश मेरे स्वामी परदेश जाते तो मैं नियमसे रहकर उनके कल्याणके लिये नाना प्रकारके माङ्गलिक कार्य किया करती थी। स्वामीके बाहर चले जानेपर मैं अञ्जन, गोरौचन, माला और अङ्गराग आदिके द्वारा शृङ्गार नहीं करती थी। जब वे सुखसे सोये रहते उस समय आवश्यक कार्य आ जानेपर भी मैं उन्हें नहीं जगाती थी और ऐसा करके मेरे मनको विशेष संतोष होता था। परिवारके पालन-पोषणके कार्यके लिये भी मैं उन्हें कभी तंग नहीं करती थी। घरकी गुप्त बातोंको सदा छिपाये रहती और घर-द्वारको सदा झाड़-बुहारकर साफ रखती थी। जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म-मार्गका पालन करती है, वह स्त्रियोंमें अलन्धतीके समान आदरणीय होती है और स्वर्गलोकमें भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार वह सौभाग्यशालिनी देवी शाण्डिली सुमनासे पतिव्रत-धर्मका वर्णन करके अन्तर्धान हो गयी।

साम-गुणकी प्रशंसा—राक्षस और ब्राह्मणका संवाद

युधिष्ठिरने पूछा—सरतथेष्ट ! आप साम और दानमें किसको श्रेष्ठ मानते हैं ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न होता है और कोई दानसे। अतः पुरुषकी प्रकृतिको समझकर दोनोंमेंसे एकका प्रयोग करना चाहिये। अब तुम सामके गुणोंको सुनो। सामके द्वारा भयानक-से-भयानक प्राणी वशमें किये जा सकते हैं। इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुनाता है। कोई बुद्धिमान् ब्राह्मण निर्जन वनमें घूम रहा था। उसी समय एक राक्षसने आकर उसे खानेकी इच्छासे पकड़ लिया। ब्राह्मणकी बुद्धि तो अच्छी थी ही, वह विद्वान् भी था, इसलिये उस राक्षसकी भीषण आकृति देखकर भी न तो घबराया और न डुकी ही हुआ। बल्कि उसके प्रति साम-नीतिका प्रयोग करने लगा। राक्षसने ब्राह्मणके शास्त्रिमय वचनोंकी प्रशंसा की और कहा—‘मेरे प्रश्नका उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वताजो, मैं इतना दुर्बल और उबास क्यों हो रहा हूँ?’

यह सुनकर ब्राह्मणने कुछ देर विचार किया। फिर बड़े धैर्यके साथ उसने उसके प्रश्नोंका उत्तर देना आरम्भ किया ‘राक्षस ! जान पड़ता है तुम सुहृद् जनोसे अलग होकर परदेशमें वेगाने लोगोंके साथ रहकर अतुलनीय



विषयोंका उपभोग कर रहे हो। तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा

पत्नीमति सम्मानित होनेपर भी अपने स्वभाव-दोषके कारण तुमसे विभूत रहते हैं। गुणोंमें जो तुम्हारी अपेक्षा बहुत ही निहृष्ट है, वे जट मनुष्य भी धन और ऐश्वर्यमें अधिक होनेके कारण सदा तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं। इसी कारण तुम दुर्बल और उदास हो रहे हो। तुम गुणवान्, विद्वान् और विनीत होनेपर भी सम्मान नहीं पाते और गुणहीन तथा भ्रष्ट व्यक्तिओंको सम्मानित होते देखते हो। जीवन-निर्वाहका कोई उपाय न होनेसे तुम क्लेश उठाते होगे, किन्तु अपने गौरवके कारण जीविकाके प्रतिग्रह आदि उपायोंकी निन्दा करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते होगे; सम्भव है, यही तुम्हारी उदासी और दुर्बलताका कारण हो। तुम सज्जनताके कारण अपने शरीरको कष्ट देकर भी जब किसीका उपकार करते होगे तो यह तुम्हें अपनी शक्तसे पराजित समझता होगा। जिनका चित्त काम और शोधसे आक्रान्त है, अतएव जो कुमार्गमें चलकर कष्ट भोग रहे हैं, सम्भवतः ऐसे ही लोगोंके लिये तुम सदा चिन्तित रहते होगे। यद्यपि तुम बड़े युद्धिमान् हो तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हींसी उड़ते होंगे और बुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होंगे—शायद यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलताका कारण हो। अथवा यह भी हो सकता है कि कोई शत्रु ऊपरसे श्रेष्ठ पुरुषके समान बर्ताव करता हुआ आया हो और मूर्खसे मित्रताकी बातें करके तुम्हें धोखा देकर भाग गया हो। तुम अर्थज्ञानमें प्रसिद्ध, रहस्यकी बातें समझनेमें कुशल और विद्वान् हो तो भी गुणज्ञ पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते, इसीसे तुम उदासीन और दुर्बल रहते हो। तुम संदेहहीन होकर उत्तम बातोंका उपवेश करते हो तो भी नीच पुरुषोंके समुदायमें तुम्हारे गुणोंकी प्रतिष्ठा नहीं होती। अथवा यह हो सकता है कि तुम धन, बुद्धि और विद्यासे हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्तके आधारपर घट्टपन चाहते रहे हो और इसमें सफलता न मिली हो। मूर्ख तो ऐसा अनुमान होता है तुम्हारा मन तपस्यामें लगा हुआ है और इसीके लिये तुम जंगलमें रहना चाहते हो; किन्तु तुम्हारे भाई-बन्धु यह बात नहीं पसंद करते। यह भी सम्भव है कि तुम्हारी स्त्री बड़ी मुन्दरी हो और तुम्हारे पड़ोसमें ही कोई बहुत सुन्दर, धनी और परस्त्रीलम्पट नीजवान रहता हो। एक दूसरी सम्भावना भी है तुम धनवानोंके बीच उत्तम और समर्पित बात कहते होगे, किन्तु वह उन्हें पसंद न आती होगी अथवा तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मूर्खताके कारण तुमपर कुपित हो

गया होगा और तुम उसे किसी तरह समझाने-बुझाकर शान्त न कर पाते होगे। सम्भवतः इन्हीं सब कारणोंमें तुम दुर्बल और उदासीन हो रहे हो। जान पड़ता है कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार किसी काममें नियुक्त करके सदा साम उठाना चाहता है अथवा तुम अपने सदगुणोंके कारण लोगोंमें सम्मानित होते हो तो भी तुम्हारे मुद्द (बन्धु-बागधव) समझते हैं कि यह हमारे ही प्रभावसे आकर पा रहा है और तुम सज्जगते सिधित होनेके कारण अपना आन्तरिक अभिप्राय किसीपर प्रकट करना नहीं चाहते। संसारमें नाना प्रकारको बुद्धि और मिश्र-मिश्र रचिवासे लोग रहते हैं, उन सबको तुम अपने गुणोंसे बचाने करना चाहते हो। अथवा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान् न होकर भी विद्यामें मिसनेवासे यशको पाना चाहते हो, उरपोक होनेपर भी पराक्रमजनित कीर्तिके अभिलाषा रखते हो और अपने पास थोड़ा-सा धन रहनेपर भी बड़े-बड़े बागोंका गुपरा प्राप्त करना चाहते हो—यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलताका कारण जान पड़ता है। एक बात यह भी ध्यानमें आती है कि तुम्हें अपना कोई दोष नहीं दिखायी देता तो भी लोग अकारण ही तुम्हें कोसते रहते हैं। तुम साधु पुरुषोंको गृहस्थ, दुर्जनको वनवासी और संन्यासियोंको मठ-मन्दिर आदिमें आशक्त देखते हो, इसी चिन्तासे उदासीन और दुर्बल होते जा रहे हो। तुम्हारे स्नेही बन्धु-बागधव कष्टमें पड़कर दरिद्रताका दुःख भोगते हैं और तुम उन्हें उससे मुक्त नहीं कर पाते, इसलिये अपने धनहीन जीवनको प्यर्ष समझते हो। तुम्हारी बातें धर्म, अर्थ और कामके अनुकूल एवं सामयिक होनेसे तो भी दूसरे लोग उनपर विरवास नहीं करते। मनोर्षी होनेपर भी जीवनको इच्छामें तुम्हें अज्ञानी पुरुषोंके लिये हुए धनपर गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारे मुद्द-साम्बन्धी एक दूसरेसे विरोध रखते हैं और तुम उनका प्रिय करना चाहते हो। वैश्व ब्राह्मणोंको वेद-विद्वद् ब्रम् करते और विद्वानोंको इन्द्रियोंके बशमें पड़े देखकर तुम निरन्तर चिन्तित रहते हो। सम्भवतः इन्हीं सब कारणोंसे तुम्हारा शरीर उदास और दुर्बल हो गया है।

ऐसा बहकर जब उस ब्राह्मणने राजाका सम्मान किया तो राजासे भी ब्राह्मणका विरोध सत्कार किया। उसने जो समय ब्राह्मणको अपना मित्र बना लिया और उसे धन देकर छोड़ दिया।

वड़ी जटाएँ रखानेसे इस लोकमें नहीं आयी हूँ। मैंने सदा सावधान रहकर अपने पतिदेवके प्रति मुँहसे कभी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं। मैं सदा सास-ससुरकी आज्ञामें रहती और देवता, पितर तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें प्रमाद नहीं करती थी। किसीकी चुगली नहीं खाती थी। चुगली की आदत मुझे विल्कुल पसंद न थी। मैं घरका दर-वाजा छोड़कर अन्यत्र नहीं खड़ी होती और देरतक किसीसे बात नहीं करती थी। मैंने कभी छिपकर या सामने किसीसे अश्लील परिहास नहीं किया तथा मेरे द्वारा किसीका अहित भी नहीं हुआ है। यदि मेरे स्वामी किसी कामसे बाहर जाकर फिर घरको लौटते तो मैं उठकर उन्हें बैठनेके लिये आसन देती और एकाग्रचित्तसे उनकी पूजा करती थी। जो अन्न मेरे स्वामी नहीं खाना चाहते, जिस भक्ष्य, भोज्य या लेह्य (चटनी) आदिको वे नहीं पसंद करते, उन सबको मैं भी त्याग देती थी। सारे कुटुम्बके लिये जो कुछ कार्य आ पड़ता, वह सब मैं सवैरे ही उठकर कर-करा लेती थी। यदि किसी आवश्यक

कार्यवश मेरे स्वामी परदेश जाते तो मैं नियमसे रहकर उनके कल्याणके लिये नाना प्रकारके माङ्गलिक कार्य किया करती थी। स्वामीके बाहर चले जानेपर मैं अञ्जन, गोरोचन, माला और अङ्गराग आदिके द्वारा शृङ्गार नहीं करती थी। जब वे मुखसे सोये रहते उस समय आवश्यक कार्य आ जानेपर भी मैं उन्हें नहीं जगाती थी और ऐसा करके मेरे मनको विशेष संतोष होता था। परिवारके पालन-पोषणके कार्यके लिये भी मैं उन्हें कभी तंग नहीं करती थी। घरकी गुप्त बातोंको सदा छिपाये रहती और घर-द्वारको सदा झाड़-बुहारकर साफ रखती थी। जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म-मार्गका पालन करती है, वह स्त्रियोंमें अरुन्धतीके समान आदरणीय होती है और स्वर्गलोकमें भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार वह सौभाग्यशालिनी देवी शाण्डिली सुमनासे पतिव्रत-धर्मका वर्णन करके अन्तर्धान हो गयी।

साम-गुणकी प्रशंसा—राक्षस और ब्राह्मणका संवाद

युधिष्ठिरने पूछा—भरतश्रेष्ठ ! आप साम और दानमें किसको श्रेष्ठ मानते हैं ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न होता है और कोई दानसे। अतः पुरुषकी प्रकृतिको समझकर दोनोंमेंसे एकका प्रयोग करना चाहिये। अब तुम सामके गुणोंको सुनो। सामके द्वारा भयानक-से-भयानक प्राणी वशमें किये जा सकते हैं। इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। कोई बुद्धिमान् ब्राह्मण निर्जन वनमें घूम रहा था। उसी समय एक राक्षसने आकर उसे खानेकी इच्छासे पकड़ लिया। ब्राह्मणकी बुद्धि तो अच्छी थी ही, वह विद्वान् भी था, इसलिये उस राक्षसकी भीषण आकृति देखकर भी न तो घबराया और न डुकी ही हुआ। बल्कि उसके प्रति साम-नीतिका प्रयोग करने लगा। राक्षसने ब्राह्मणके शान्तिमय वचनोंकी प्रशंसा की और कहा—‘मेरे प्रश्नका उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ, मैं इतना दुर्बल और उदास क्यों हो रहा हूँ?’

यह सुनकर ब्राह्मणने कुछ देर विचार किया। फिर बड़े धैर्यके साथ उत्तरे उसके प्रश्नोंका उत्तर देना आरम्भ किया ‘राक्षस ! जान पड़ता है तुम सुहृद् जनोंसे अलग होकर परदेशमें वेगाने लोगोंके साथ रहकर अतुलनीय



विषयोंका उपनोग कर रहे हो। तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा

उद्धार होता है ? इसी प्रकार यदि मध्यम पिण्ड पत्नी ही था जाती है तो उसके पितर किस प्रकार उस पिण्डका उपभोग करते हैं तथा अन्तिम पिण्ड जब अग्निमें डाल दिया जाता है तो उसकी क्या गति होती है ? यह किस देवताको मिसला है ? यह सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ ।

पितरोंने कहा—देवदूत ! पहला पिण्ड जो पानीके भीतर घसा जाता है, वह चन्द्रमाको तुप्त करता है और चन्द्रमा स्वयं देवता तथा पितरोंको संतुष्ट करते हैं । इसी प्रकार पत्नी गुरुजनोंकी आत्मासे जो मध्यम पिण्डका भक्षण करती है, उससे प्रसन्न होकर पितामह पुत्रको कामनावाले पुरुषको पुत्र प्रदान करते हैं तथा अग्निमें जो पिण्ड डाला जाता है, उससे तुप्त होकर पितर मनुष्यको सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करते हैं । इस प्रकार तीनों पिण्डोंकी गति बतलायी गयी । ब्राह्मणको स्नान आदिसे पबित्र होकर धादकमें भोजन करना चाहिये । धादकमें भोजन करनेवाला ब्राह्मण उस दिन धज-मानका पितर माना जाता है, इसलिये उसे अपनी स्त्रीके साथ सहवास नहीं करना चाहिये; क्योंकि उस दिन उसके लिये वह परायी स्त्रीके समान होती है । जो पुरुष इस विधिसे अनुसार धादकका दान देता है, उसकी संतानकी वृद्धि होती है ।

पितरोंने इस प्रकार कहनेके बाद विद्युत्प्रभ नामवाले एक तपस्वी महर्षिने इन्द्रसे पूछा देवराज ! मनुष्य मोहबरा कौट, पिपीलिका (चँटो), साँप, भेड़, मृग और पक्षी आदि तिर्यग्-योगिके प्राणियोंकी हिंसा करके जो महान् पाप बटोरते हैं, उससे छुटकारा पानेके लिये उन्हें कौन-सा प्रायश्चित्त करना चाहिये ? उनका यह प्रश्न सुनकर सभी देवता, ऋषि और पितरोंने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

इन्द्रने उत्तर दिया—मनुष्यको चाहिये कि कुशक्षेत्र, गद्या, गङ्गा, प्रभास और पुष्कर क्षेत्रका मन-श्री-मन ध्यान करके जलमें स्नान करे—ऐसा करनेसे यह पापसे मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य गायकी पीठका स्पर्श करके उसकी पूँछको प्रणाम करता है, उसे उर्ध्वत तीर्थोंमें तीन दिनतक उपवासपूर्वक रहने और स्नान करनेका फल प्राप्त होता है ।

तत्पश्चात् इन्द्रने देवताओंके मध्यमें अपने गुरु बृहस्पति-जीसे मधुर वाणीमें कहा—भगवन् ! मनुष्योंको मुल देने-

वाले धर्मका गूढ़ स्वरूप बतलायें, साथ ही रहस्यमयित्त दोषोंका भी वर्णन कीजिये ।

बृहस्पतिजीने कहा—इन्द्र ! साक्षात् ब्रह्माग्निने सूर्य, पवन, अग्नि और सौरमाता गीर्वाणी सृष्टिकी है । ये मनुष्य-सोके देवता हैं तथा सम्पूर्ण जगत्का उद्धार करनेको शक्ति रखते हैं । जो स्त्री और पुरुष सूर्यकी ओर मुंह करके प्रणाम करते हैं, वे छियासी वर्षतक बुराचारी और कुसकृत् होकर जीवन व्यतीत करते हैं । जो पवन देवताके साथ द्वेष करते हैं, उनकी संतान गर्भमें भांकर म्रुष्ट हो जाती है । जो वातगो हुई आगमें ईंधन नहीं डालते, उनका हृदय अग्निहोत्रके समय अग्निदेव नहीं ग्रहण करते । जिनके बछड़े अभी बहुत छोटे हैं ऐसे गोओंका सारा दूध बुराकर जो सोग पी जाते हैं, उनके यहाँ दूध पीनेवाले बच्चे नहीं पैदा होते । उनकी संतान और कुलका भी नारा हो जाता है । उत्तम कुलमें उत्पन्न बिद्वान् ब्राह्मणोंने पूर्वकालमें इसी प्रकार उन्नत पापोंका फल होता देखा है । इसलिये शास्त्रमें जिन कर्मोंका निषेध किया गया है, उनका परित्याग करना चाहिये और जिन्हें कर्तव्य बतलाया गया है उनका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिये ।

तदनन्तर, सम्पूर्ण देवता, मरुद्गण और ऋषियोंने पितरोंसे पूछा—मनुष्योंकी वृद्धि छोड़ी होती है अतः वे कौन-सा कर्म करें जिससे आपसो उनके ऊपर संतुष्ट होंगे ? धादकमें दिया हुआ दान किस प्रकार भक्षण हो सकता है ? मनुष्य किस कर्मके अनुष्ठानसे पितरोंके ऋणसे छुटकारा पा सकते हैं ? इन बातोंको सुननेके लिये हमें बड़ी उत्सुकता है ।

पितरोंने कहा—देवगण ! उत्तम कर्म करनेवासे मनुष्यके जिस कामसे हम संतुष्ट होते हैं, उसको सुनिये । नीचे रंगके साँड़ छोड़ने, अमावास्याको तिसमिभिषत जलसे तर्पण करने और वर्षाकालमें शीप-दान करनेसे मनुष्यका पितरोंके ऋणसे उद्धार होता है । इस प्रकार निष्कण्ट भावसे किया हुआ दान भक्षण और महान् फलसे देनेवाला है और इससे हमलोगोंको भी सदा संतोष रहता है । जो पुरुष पितरोंमें धृष्टा रखकर संतान उत्पन्न करेंगे, वे अपने प्रपिता-महोंका दुर्गम मरकसे उद्धार कर देंगे । इस प्रकार धादकके काल, क्रम, विधि, पात्र और फलका प्रकाशन वर्णन किया गया ।

श्राद्धके विषयमें देवदूत और पितरोंका तथा धर्मके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका संवाद

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! पूर्वकालमें भगवान् देवव्यासने मुझे धर्मके जो गूढ़ रहस्य बतलाये थे, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो—जिसके करनेसे देवता, पितर, ऋषि, प्रमथ, लक्ष्मी, चित्रगुप्त और दिग्गज प्रसन्न होते हैं, जिसमें महान् फल देनेवाले ऋषि-धर्मका रहस्यसहित समावेश हुआ है तथा जिसके अनुष्ठानसे बड़े-बड़े दानों और सम्पूर्ण यज्ञोंका फल मिलता है, उस धर्मको जो जानता और जानकर उसके अनुसार आचरण करता है, वह पापी रहा हो तो भी पापमुक्त होकर सद्गुणसम्पन्न हो जाता है। दस कसाइयोंके समान एक तेली, दस तेलियोंके समान एक कलवार, दस कलवारोंके समान एक वेश्या और दस वेश्याओंके समान एक राजा है अतः राजाका दान लेना निषिद्ध माना गया है। जिसमें धर्म, अर्थ और कामका वर्णन है, जो पवित्र और पुण्यका परिचय करानेवाला है, जिसमें धर्म और उसके रहस्योंकी व्याख्या है तथा जो परम पवित्र, धर्मयुक्त और साक्षात् देवताओंद्वारा निर्मित है, उस शास्त्रका श्रवण करना चाहिये। जिसमें पितरोंके श्राद्धके विषयमें गूढ़ बातें बतलाई गयी हैं, जहाँ सम्पूर्ण देवताओंके रहस्यका पूरा-पूरा वर्णन है तथा जिसमें रहस्यसहित महान् फलदायी ऋषि-धर्मका एवं बड़े-बड़े यज्ञों और सम्पूर्ण दानोंके फलका प्रतिपादन किया गया है, उस शास्त्रको जो लोग सदा पढ़ते हैं, जिन्हें उसका तत्त्व हृदयङ्गम होता है तथा जो पढ़कर दूसरोंके सामने उसकी व्याख्या करते हैं, वे साक्षात् भगवान् नारायणके स्वरूप हैं। जो मनुष्य अतिथियोंकी पूजा करता है, उसे गो-दान, तीर्थ-स्नान और यज्ञानुष्ठानका फल मिलता है। जो श्राद्धके साथ धर्म-शास्त्रोंका श्रवण करते हैं तथा जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, वे अवश्य ही पुण्य-लोकोपर विजय प्राप्त करते हैं। श्राद्धपूर्वक शास्त्र-श्रवण करनेवाला मनुष्य अपने पूर्वपापोंसे छुटकारा पा जाता है। भविष्यमें वह पाप नहीं करता तथा नित्यप्रति धर्मका अनुष्ठान करता रहता है और मरनेके बाद उसे उत्तम लोककी प्राप्ति होती है।

एक समयकी बात है, एक देवदूतने पितरों और देवताओंसे प्रश्न किया—'क्या कारण है कि श्राद्धके दिन श्राद्धकर्ता और श्राद्धमें भोजन करनेवाले पुरुषके लिये मैथुनका निषेध किया गया है? श्राद्धमें अलग-अलग तीन पिण्ड क्यों दिये जाते हैं? पहला पिण्ड किसे देना चाहिये? दूसरा पिण्ड किसे मिलता है? तथा तीसरे पिण्डका अधिकारी कौन है? ये सब बातें मैं जानना चाहता हूँ।'



पितरोंने कहा—देवदूत ! तुम्हारा कल्याण हो, हम सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है तो भी हम उसका उत्तर देते हैं, सुनो—जो पुरुष श्राद्धका दान देकर अथवा श्राद्धमें भोजन करके स्त्रीके साथ समागम करता है, उसके पितर उस दिनसे लेकर एक महीनेतक उसीके वीर्यमें निवास करते हैं। अब हम क्रमशः पिण्डोंका भाग बतला रहे हैं। श्राद्धमें जो तीन पिण्डोंका विधान है, उनमें पहला पिण्ड जलमें डाल देना चाहिये। मध्यम पिण्ड श्राद्धकर्ताकी पत्नीको खिला देना चाहिये और तीसरे पिण्डको अग्निमें छोड़ देना चाहिये—यही श्राद्धकी विधि है। जो इसका पालन करता है, उसके धर्मका कमी लोप नहीं होता, उसके पितर सदा प्रसन्नचित्त एवं संतुष्ट रहते हैं और उसका विद्या हुआ दान अक्षय होता है।

देवदूतने पूछा—पितृगण ! आपलोगोंने पिण्डोंका क्रमशः विभाग बतला दिया; किंतु पहले पिण्डको जो जलमें डाल देनेकी बात बताया है, उसके अनुसार यदि वह जलमें डाल दिया जाय तो नीचे जाकर वह पिण्ड किसे मिलता है? किस देवताको प्रसन्न करता है? तथा किस प्रकार उससे पितरोंका

उद्धार होता है ? इसी प्रकार यदि मध्यम पिण्ड पत्नी ही सा जाती है तो उसके पितर किस प्रकार उस पिण्डका उपभोग करते हैं तथा अन्तिम पिण्ड जब अग्निमें डाल दिया जाता है तो उसको क्या गति होती है ? यह किस देवताको मिलता है ? यह सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ ।

पितरोंने कहा—देवदूत ! पहला पिण्ड जो पानीके भीतर चला जाता है, वह चन्द्रमाको तृप्त करता है और चन्द्रमा स्वयं देवता तथा पितरोंको संतुष्ट करते हैं । इसी प्रकार पत्नी पुत्रजनोंको आमासे जो मध्यम पिण्डका भक्षण करती है, उससे प्रसन्न होकर पितामह पुत्रको कामनावाले पुत्रको पुत्र प्रदान करते हैं तथा अग्निमें जो पिण्ड डाला जाता है, उससे तृप्त होकर पितर मनुष्यको सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करते हैं । इस प्रकार तीनों पिण्डोंकी गति बतलायी गयी । ब्राह्मणको स्नान आदिसे विवर्ण होकर धादकमें भोजन करना चाहिये । धादकमें भोजन करनेवाला ब्राह्मण उस दिन यजमानका पितर माना जाता है, इसलिये उसे अपनी स्त्रीके साथ सहवास नहीं करना चाहिये; क्योंकि उस दिन उसके लिये वह परायी स्त्रीके समान होती है । जो पुरुष इस विधिसे अनुष्ठार धादकान दान देता है, उसकी संतानकी वृद्धि होती है ।

पितरोंके इस प्रकार कहनेके बाद विद्युत्प्रम नामवाले एक तपस्वी महर्षिने इन्द्रसे पूछा 'दिवराज ! मनुष्य मोहवशा कौट, पिपीलिका (चींटी), साँप, भेड़, मृग और पक्षी आदि तिर्यग्-योनिके प्राणियोंकी हिंसा करके जो महान् पाप बढ़ोरते हैं, उससे छुटकारा पानेके लिये उन्हें कौन-सा प्रयत्नचल करना चाहिये ?' उनका यह प्रश्न सुनकर सभी देवता, ऋषि और पितरोंने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

इन्द्रने उत्तर दिया—मनुष्यको चाहिये कि क्रूरशंख, गया, गङ्गा, प्रभास और पुष्कर शंखका मन-ही-मन ध्यान करके जलमें स्नान करे—ऐसा करनेसे वह पापसे मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य गायकी पीठका स्पर्श करके उसकी पूँछको प्रणाम करता है, उसे उपयुक्त तीर्थोंमें तीन दिनतक उपवासपूर्वक रहने और स्नान करनेका फल प्राप्त होता है ।

तत्परचात् इन्द्रने देवताओंके मध्यमें अपने गुरु महर्षति-जोसे मधुर वाणीमें कहा—'भगवन् ! मनुष्योंको सुल देने-

वाले धर्मका गुरु स्वरूप बतलाइये, साथ ही रहस्यमहिता दोषोंका भी वर्णन कीजिये ।'

बृहस्पतिजीने कहा—इन्द्र ! सासाम् ब्रह्माजीने सूर्य, पवन, अग्नि और लोकमाता गौओंको सृष्टिकी है । ये मनुष्य-लोकके देवता हैं तथा सम्पूर्ण जगत्का उद्धार करनेकी शक्ति रखते हैं । जो स्त्री और पुरुष सूर्यको और भूँह करके पेशाब करते हैं, वे छियासी वर्षतक बुराचारी और कुसकसू होकर जीवन व्यतीत करते हैं । जो पवन देवताके साथ द्वेष करते हैं, उनकी संतान गर्भमें भाकर मरट हो जाती है । जो जलती हुई आगमें ईंधन नहीं डालते, उनका हृदय अग्निहीनके समान अग्निदेव नहीं ग्रहण करते । जिनके बछड़े अभी बहुत छोटे हों ऐसी गौओंका सारा दूध बूढ़कर जो लोग पी जाते हैं, उनके यहाँ दूध पीनेवाले बच्चे नहीं पैदा होते । उनकी संतान और कुसका भी नाश हो जाता है । उत्तम कुसमें उत्पन्न विद्वान् ब्राह्मणोंने पूर्वकालमें इसी प्रकार उन्नत पापोंका फल होता देखा है । इसलिये शास्त्रमें जिन कर्मोंका निषेध किया गया है, उनका परित्याग करना चाहिये और जिन्हें कर्तव्य बतलाया गया है उनका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिये ।

सदनन्तर, सम्पूर्ण देवता, मरुद्गण और ऋषियोंने पितरोंसे पूछा—'मनुष्योंकी वृद्धि थोड़ी होती है अतः वे कौन-सा कर्म करें जिससे आपसोप उनके ऊपर संतुष्ट होंगे ? धादकमें दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है ? मनुष्य किस कर्मके अनुष्ठानसे पितरोंके ऋणसे छुटकारा पा सकते हैं ? इन बातोंको सुननेके लिये हमें बड़ी उत्सुकता है ।'

पितरोंने कहा—देवगण ! उत्तम कर्म करनेवाले मनुष्यके जिस कामसे हम संतुष्ट होते हैं, उसको सुनिये । नीले रंगके साँड़ छोड़ने, अमावास्याको तिसमिधित जलसे तर्पण करने और वर्षाकालमें शैष-दान करनेसे मनुष्यका पितरोंके ऋणसे उद्धार होता है । इस प्रकार निष्कपट भावसे किया हुआ दान अक्षय और महान् फलकी देनेवाला है और इससे हमस लोगोंको भी सदा संतोष रहता है । जो पुरुष पितरोंमें धन्दा रखकर संतान उत्पन्न करेंगे, वे अपने प्रतिता-महोंका दुर्गम नरकसे उद्धार कर देंगे । इस प्रकार धादकके काल, क्रम, विधि, पात्र और फलका यथायत्न वर्णन किया गया ।

श्राद्धके विषयमें देवदूत और पितरोंका तथा धर्मके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका संवाद

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! पूर्वकालमें भगवान् वेदव्यासने मुझे धर्मके जो गूढ़ रहस्य बतलाये थे, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो—जिसके करनेसे देवता, पितर, ऋषि, प्रमथ, लक्ष्मी, चित्रगुप्त और दिग्गज प्रसन्न होते हैं, जिसमें महान् फल देनेवाले ऋषि-धर्मका रहस्यसहित समावेश हुआ है तथा जिसके अनुष्ठानसे बड़े-बड़े दानों और सम्पूर्ण यज्ञोंका फल मिलता है, उस धर्मको जो जानता और जानकर उसके अनुसार आचरण करता है, वह पापी रहा हो तो भी पापमुक्त होकर सद्गुणसम्पन्न हो जाता है। दस कसाइयोंके समान एक तेली, दस तेलियोंके समान एक कलवार, दस कलवारोंके समान एक वेश्या और दस वेश्याओंके समान एक राजा है अतः राजाका दान लेना निषिद्ध माना गया है। जिसमें धर्म, अर्थ और कामका वर्णन है, जो पवित्र और पुण्यका परिचय करानेवाला है, जिसमें धर्म और उसके रहस्योंकी व्याख्या है तथा जो परम पवित्र, धर्मयुक्त और साक्षात् देवताओंद्वारा निर्मित है, उस शास्त्रका श्रवण करना चाहिये। जिसमें पितरोंके श्राद्धके विषयमें गूढ़ बातें बतायी गयी हैं, जहाँ सम्पूर्ण देवताओंके रहस्यका पूरा-पूरा वर्णन है तथा जिसमें रहस्यसहित महान् फलदायी ऋषि-धर्मका एवं बड़े-बड़े यज्ञों और सम्पूर्ण दानोंके फलका प्रतिपादन किया गया है, उस शास्त्रको जो लोग सदा पढ़ते हैं, जिन्हें उसका तत्त्व हृदयङ्गम होता है तथा जो पढ़कर दूसरोंके सामने उसको व्याख्या करते हैं, वे साक्षात् भगवान् नारायणके स्वरूप हैं। जो मनुष्य अतिथियोंकी पूजा करता है, उसे गो-दान, तीर्थ-स्नान और यज्ञानुष्ठानका फल मिलता है। जो श्राद्धके साथ धर्म-शास्त्रोंका श्रवण करते हैं तथा जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, वे अवश्य ही पुण्य-लोकोंपर विजय प्राप्त करते हैं। श्रद्धापूर्वक शास्त्र-श्रवण करनेवाला मनुष्य अपने पूर्वपापोंसे छुटकारा पा जाता है। भविष्यमें वह पाप नहीं करता तथा नित्यप्रति धर्मका अनुष्ठान करता रहता है और मरनेके बाद उसे उत्तम लोककी प्राप्ति होती है।

एक समयकी बात है, एक देवदूतने पितरों और देवताओंसे प्रश्न किया—'व्या कारण है कि श्राद्धके दिन श्राद्धकर्ता और श्राद्धमें भोजन करनेवाले पुरुषके लिये मनुष्यका निषेध किया गया है? श्राद्धमें अलग-अलग तीन पिण्ड क्यों दिये जाते हैं? पहला पिण्ड किसे देना चाहिये? दूसरा पिण्ड किसे मिलता है? तथा तीसरे पिण्डका अधिकारी कौन है? ये सब बातें मैं जानना चाहता हूँ।'



पितरोंने कहा—देवदूत ! तुम्हारा कल्याण हो, हम सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है तो भी हम उसका उत्तर देते हैं, सुनो—जो पुरुष श्राद्धका दान देकर अथवा श्राद्धमें भोजन करके स्त्रीके साथ समागम करता है, उसके पितर उस दिनसे लेकर एक महीनेतक उसीके वीर्यमें निवास करते हैं। अब हम क्रमशः पिण्डोंका भाग बतला रहे हैं। श्राद्धमें जो तीन पिण्डोंका विधान है, उनमें पहला पिण्ड जलमें डाल देना चाहिये। मध्यम पिण्ड श्राद्धकर्ताकी पत्नीको खिला देना चाहिये और तीसरे पिण्डको अग्निमें छोड़ देना चाहिये—यही श्राद्धकी विधि है। जो इसका पालन करता है, उसके धर्मका कमी लोप नहीं होता, उसके पितर सदा प्रसन्नचित्त एवं संतुष्ट रहते हैं और उसका विया हुआ दान अक्षय होता है।

देवदूतने पूछा—पितृगण ! आपलोगोंने पिण्डोंका क्रमशः विभाग बतला दिया; किंतु पहले पिण्डको जो जलमें डाल देनेकी बात बतायी है, उसके अनुसार यदि वह जलमें डाल दिया जाय तो नीचे जाकर वह पिण्ड किसे मिलता है? किस देवताको प्रसन्न करता है? तथा किस प्रकार उससे पितरोंका

उद्धार होता है? इसी प्रकार यदि मध्यम पिण्ड पत्नी ही ला जाती है तो उसके पितर किस प्रकार उस पिण्डका उपभोग करते हैं तथा अन्तिम पिण्ड जब अग्निमें डाल दिया जाता है तो उसकी क्या गति होती है? यह किस देवताको मिलता है? यह सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ।

पितरोंने कहा—देवदूत! पहला पिण्ड जो पानीके भीतर चला जाता है, वह चन्द्रमाको तृप्त करता है और चन्द्रमा स्वयं देवता तथा पितरोंको संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार पत्नी गृहजनोंकी आत्मासे जो मध्यम पिण्डका भक्षण करती है, उससे प्रसन्न होकर पितामह पुत्रको कामनावाले पुत्रको पुत्र प्रदान करते हैं तथा अग्निमें जो पिण्ड डाला जाता है, उससे तृप्त होकर पितर मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करते हैं। इस प्रकार तीनों पिण्डोंकी गति बतलायी गयी। ब्राह्मणको स्नान आदिसे पवित्र होकर श्राद्धमें भोजन करना चाहिये। श्राद्धमें भोजन करनेवाला ब्राह्मण उस दिन यजमानका पितर माना जाता है, इसलिये उसे अपनी स्त्रीके साथ सहवास नहीं करना चाहिये; क्योंकि उस दिन उसके लिये वह परायी स्त्रीके समान होती है। जो पुत्र्य इस विधिके अनुसार श्राद्धका दान देता है, उसकी संतानकी वृद्धि होती है।

पितरोंके इस प्रकार कहनेके बाद विद्युत्प्रभ नामवाले एक तपस्वी महर्षिने इन्द्रसे पूछा दिवराज। मनुष्य मोहवश कौट, पिपीलिका (चाँदी), सौप, भेड़, मृग और पक्षी आदि तिर्यग्-घोनिके प्राणिमोंकी हिंसा करके जो महान् पाप बटोरते हैं, उससे छुटकारा पानेके लिये उन्हें कौन-सा प्रायश्चित्त करना चाहिये? उनका यह प्रश्न सुनकर सभी देवता, ऋषि और पितरोंने उनकी भृरि-भृरि प्रशंसा की।

इन्द्रने उत्तर दिया—मनुष्यको चाहिये कि कुम्भोत्, गया, गङ्गा, प्रयाग और पुष्कर क्षेत्रका मन-हो-मन ध्यान करके जलमें स्नान करे—ऐसा करनेसे यह पापसे मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गायकी पीठका स्पर्श करके उसकी पूँछको प्रणाम करता है, उसे उपयुक्त तीर्थोंमें तीन दिनतक उपवासपूर्वक रहने और स्नान करनेका फल प्राप्त होता है।

तत्परचात् इन्द्रने देवताओंके मध्यमे अपने गुरु बृहस्पति-जीसे मधुर वाणीमें कहा—मगवन्! मनुष्योंको मुक्त देने-

वाले धर्मका गुरु स्वरूप बतलाइये, साथ ही रहस्यसहित दोषोंका भी वर्णन कीजिये।

बृहस्पतिजीने कहा—इन्द्र! साक्षात् ब्रह्माजीने सूर्य, पवन, अग्नि और लोकरामता गौओंकी सृष्टिकी है। ये मनुष्य-लोकके देवता हैं तथा सम्पूर्ण जगत्का उद्धार करनेकी शक्ति रखते हैं। जो स्त्री और पुत्र्य सूर्यकी ओर मुंह करके पेशाब करते हैं, वे छियासी वर्षतक दुराचारी और कुसकलशु होकर जीवन व्यतीत करते हैं। जो पवन देवताके साथ द्वेष करते हैं, उनकी संतान गर्भमें अक्रूर-नष्ट हो जाती है। जो जलती हुई आगमें ईंधन नहीं डालते, उनका हविष्य अग्निहोवके समय अग्निदेव नहीं ग्रहण करते। जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हों ऐसी गौओंका सारा दूध बूढ़कर जो लोग पी जाते हैं, उनके यहाँ दूध पीनेवाले बच्चे नहीं पैदा होते। उनकी संतान और कुसका भी नारा हो जाता है। उत्तम कुसमें उत्पन्न विद्वान् ब्राह्मणोंने पूर्वकालमें इसी प्रकार उजब पापोंका फल होता देखा है। इसलिये शास्त्रमें जिन कर्मोंका निषेध किया गया है, उनका परित्याग करना चाहिये और जिन्हें कर्तव्य बतलाया गया है उनका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिये।

तदनन्तर, सम्पूर्ण देवता, महद्गण और ऋषियोंने पितरोंसे पूछा—‘मनुष्योंकी वृद्धि थोड़ी होती है अतः वे कौन-सा कर्म करें जिससे आपलोग उनके ऊपर संतुष्ट होंगे? श्राद्धमें दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है? मनुष्य किस कर्मके अनुष्ठानसे पितरोंके ऋणसे छुटकारा पा सकते हैं? इन बातोंको सुननेके लिये हमें बड़ी उत्सुकता है।’

पितरोंने कहा—देवगण! उत्तम कर्म करनेवाले मनुष्यके जिस कामसे हम संतुष्ट होते हैं, उसको सुनिये। नीले रंगके साँड़ छोड़ने, अमावास्याको तिलमिश्रित जलसे तर्पण करने और वर्षाकालमें दीप-दान करनेसे मनुष्यका पितरोंके ऋणसे उद्धार होता है। इस प्रकार निष्कपट भावसे किया हुआ दान अक्षय और महान् फलकी देनेवाला है और इससे हमलोगोंको भी सदा संतोष रहता है। जो पुत्र्य पितरोंमें थड़ा रखकर संतान उत्पन्न करेंगे, वे अपने प्रपिता-महोंका दुर्गम नरकसे उद्धार कर देंगे। इस प्रकार श्राद्धके काल, क्रम, विधि, पात्र और फलका यथावत् वर्णन किया गया।

विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, लक्ष्मी तथा अङ्गिरा आदि ऋषियोंके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! प्राचीन कालकी यात है एक बार देवराज इन्द्रने भगवान् विष्णुसे पूछा—



‘भगवन् ! आप किस कर्मसे प्रसन्न होते हैं ? किस प्रकार आपको संतुष्ट किया जा सकता है ?’

विष्णुने कहा—इन्द्र ! ब्राह्मणोंकी निन्दा करना मेरे साथ महान् द्वेष करनेके समान है। ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे मेरी भी पूजा हो जाती है—इसमें तनिक भी संदेहकी यात नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन भोजनके पश्चात् ब्राह्मणोंको प्रणाम करता है, मैं उसपर बहुत प्रसन्न होता हूँ। जो अपने घरपर ब्राह्मणोंको उपस्थित देखकर सबसे पहले उसे भोजन कराता और पीछे अपने भोजन करता है, उसका यह भोजन अमृतके समान माना गया है। जो प्रातःकालकी शंघा करके सूर्यके सम्मुख खड़ा होता है, उसे समस्त तीर्थोंमें स्नानका फल मिलता है और यह सद्यः पापोंसे छुटकारा पा जाता है।

फिर विश्वयिद्यात वसिष्ठ आदि सप्तर्षियोंने पद्ययोजि ब्रह्माजीकी प्रवक्षिणा की और सब-के-सब हाथ जोड़कर उनके सामने लड़े हो गये। उनमेंसे ब्रह्मयेत्ताओंमें श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनिने इस प्रकार प्रश्न किया—‘भगवन् ! मैं सम्पूर्ण

प्राणियोंके तथा चियोपतः ब्राह्मण और क्षत्रिय-जातिके हितकी वृष्टिसे एक प्रश्न आपकी सेवामें उपस्थित करता हूँ। इस संसारमें सदाचारी मनुष्य प्रायः निर्धन हैं। वे किस प्रकार और किस कर्मके अनुष्ठानसे यज्ञका फल पा सकते हैं ?’

ब्रह्माजीने कहा—महान् भाग्यशाली महर्षियो ! मनुष्यको जिस प्रकार यज्ञका फल प्राप्त होता है, वह बता रहा हूँ, सुनो—पौष मासके शुक्ल पक्षमें जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका योग हो उस दिनकी रातमें मनुष्य स्नान आदिसे शुद्ध हो एक वस्त्र धारण करके खुले मैदानमें शयन करे और श्रद्धा एवं एकाम्रताके साथ चन्द्रमाकी फिरणोंका पान करे (निराहार रहे)। ऐसा करनेसे उसको महान् यज्ञका फल मिलता है। यह मैंने तुमलोगोंसे बहुत गुप्त बात बतायी है।

अग्निदेवने कहा—जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिको चन्द्रोदयके समय चन्द्रमाकी ओर मुँह करके उन्हें जलकी एक अञ्जलि (अर्घ्य), धी और अक्षत अर्पण करता है, उसके अग्निहोत्रका कार्य पूर्ण हो जाता है। उसे गार्हपत्य आदि तीनों अग्नियोंमें हवन करनेका फल प्राप्त होता है। जो मूख अमावास्याके दिन किसी वृक्षाका एक पत्ता भी तोड़ लेता है, उसे ब्राह्मणोंका पाप लगता है। अमावास्याको वातन चयानेवाला मनुष्य चन्द्रमाकी हिरा करता है तथा उससे पितर भी उद्विग्न होते हैं। इतना ही नहीं, पर्वके दिन उसके विधे हुए हविष्यको देवतालोग नहीं स्वीकार करते और पितरोंका भी उसके ऊपर कोप होता है, जिससे उनके वंशका नाश हो जाता है।

लक्ष्मी बोलीं—जिस घरमें वर्तन फूटे, आसन फटे और पात्र इधर-उधर बिलारे रहते हैं तथा जहाँ स्त्रियाँ मारी-पीटी जाती हैं, वह घर पापके कारण दूषित होता है। यहाँसे उत्सव और पर्वके अयसरोंपर वेदता निराशा छोट जाते हैं; उस घरकी पूजा नहीं स्वीकार करते।

गार्ग्यने कहा—सदा अतिथियोंका सत्कार करे, यज्ञशालामें दीप जलाये, दिनमें न सोये, मांस न खाये, गौ और ब्राह्मणकी हत्या न करे तथा प्रतिदिन पुष्कर तीर्थका नाम लिया करे। यह रहस्यमय धर्म सर्वश्रेष्ठ और महान् फल देनेवाला है। संकड़ों बार किये हुए यज्ञका फल भी क्षीण हो जाता है, किन्तु श्रद्धापूर्वक उपयुक्त धर्मोंका पालन करनेसे प्राप्त होनेवाले फलका कभी क्षय नहीं होता। श्राद्धमें, यज्ञमें, तीर्थमें और पर्वोंके दिन देवताओंके लिये

जो हृदय संघार किया जाता है, उसे यदि रजस्वला, बोजी अथवा बन्ध्या स्त्री देख ले तो देवता उसे नहीं स्वीकार करते तथा विनूयण तेरह घण्टक असंतुष्ट रहते हैं। श्राद्ध और यज्ञके दिन मनुष्य स्नान आदिसे यथैव होकर खेत बस्त धारण करे और ब्राह्मणोंसे स्वास्तिवाचन तथा महाभारत (गीता आदि) का पाठ करावे—ऐसा करनेसे उसके विषे हुए हृदय और कष्यका फल अक्षय होता है।

धौम्यने कहा—घरमें फूटे बतन, टूटी छोट, मुर्गा, कुत्ता और बूझका होना अच्छा नहीं माना गया है। फूटे बतनोंमें कलियुगका वास माना गया है (अर्थात् फूटे बतन रखनेसे घरमें लड़ाई-झगडा लगा रहता है)। टूटी छोट रखनेसे धनकी हानि होती है। कुत्ता और मुर्गा पालनेसे

देवताभोग घरमें हृदय नहीं घट्टण करते तथा मकानके अंदर कोई बड़ा बूझ होनेपर उसकी जड़के अंदर सोप, बिचू आदि जन्तुओंका रहना अनिवाय हो जाता है, इसलिये घरके अंदर पेड़ नहीं लगाना चाहिये।

जमदग्निने कहा—कोई अश्वमेध या संहरुं वाजपेय यज्ञ करे, मोचे मस्तक करके धूममें सटके अपना बहूत बड़ा अन्न-सत्र खोल दे; किन्तु यदि उसका हृदय गुड नहीं है तो उसे अशय नरकमें जाना पड़ता है; क्योंकि यज्ञ, सत्य और हृदयकी शुद्धि—ये तीनों बराबर हैं। (प्राचीन समयमें एक ब्राह्मण) गुड हृदयसे सेरभर सत्तु बान करके ही ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ था। हृदयकी शुद्धताका महत्त्व बतलानेके लिये यह एक ही दृष्टान्त काफी होगा।

अरुण्यती, सूर्य, प्रमथ, महेश्वर, स्कन्द और विष्णुके वंताये हुए विशेष धर्मका वर्णन

भीष्मजी कहते हैं—तदनन्तर, सभी ऋषियों, पितरों और देवताओंने तपस्यामें बड़ी-बड़ी हुई अरुण्यतीदेवीसे, जो शील और शक्तिमें महात्मा वसिष्ठजीके ही समान थीं, इस प्रकार कहा—देवि ! हम आपके मूँहसे धर्मका रहस्य सुनना चाहते हैं। अतः आप धर्मका गुड तत्त्व बतलानेकी कृपा करें।

अरुण्यतीने कहा—वेद्यण ! आपलोगोंने मुझे स्मरण किया, इससे मेरे तपकी वृद्धि हुई है। अब मैं आप ही लोगोंकी कृपासे सनातन धर्मोका वर्णन करती हूँ। श्रद्धाविहीन, धर्मिमान्नी, ब्रह्मपति और गुणस्त्रीगामी—इन चार प्रकारके मनुष्योंसे बात भी नहीं करनी चाहिये। इनके सामने धर्मका तत्त्व बतलाना कदापि उचित नहीं है। जो मनुष्य बारह वर्षों-तक प्रतिदिन एक कपिला गौ बान करता, हर महीनेमें यज्ञ करता और पुण्यरतोर्धमें जाकर तातों गीर्ष दानमें देता है, उसने धर्मका फल उस मनुष्यके बराबर नहीं हो सकता जो अतिथिको अपनी सेवासे संतुष्ट करता है। प्रातःकाल उठे तथा कुशा और जल लेकर गोओंके बीचमें जाय। यहाँ गोओंके साँघपर जल छिड़के और साँघसे गिरे हुए जलको अपने मस्तकपर धारण करके उस दिन उपवास करे। इससे जो पुण्य होता है उसका वर्णन सुनिये। तीनों लोकोंमें सिद्ध, धारण और महाविद्योसे सेवित जो-जो तीर्थ सुने जाते हैं, उन गवमें स्नान करनेसे जो फल मिलता है, यही गोओंके साँघके जलसे अपने मस्तकको साँघनेपर प्राप्त होता है।

यह सुनकर देवता, पितर और समस्त प्राणी बहुत प्रमथ हुए तथा उन्होंने एकस्वरसे साधुश्राद्ध देकर अरुण्यतीदेवीकी

भूरि-भूरि प्रशंसा की। फिर ब्रह्मजीने कहा—'महाभाग ! तुम धन्य हो, तुमने रहस्यसहित अद्भुत धर्मका वर्णन किया है। मैं तुम्हें बरवान देता हूँ; तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे।' तदनन्तर, महान् तेजस्वी भगवान् सुनते देवताओं और पितरोंसे कहा—'ब्रह्महृत्पारा, गोहृत्पारा करनेवाला, परस्त्री-सम्पद, श्रद्धाहीन और स्त्रीमें जीविका चलानेवाला—ये पाँच प्रकारके दुराचारी नराधम सर्वथा त्याग कर देने योग्य हैं। इनसे बात भी नहीं करनी चाहिये। इनके पापोंका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। ये पापी प्रेतलोक (यमपुरी) में जाकर बहूँके नरकमें मछलीकी तरह पकाये जाते हैं तथा इन्हें पीय और रक्ताका भोजन मिलता है। देवता, पितर, स्नातक, ब्राह्मण और तपस्वी मनुष्योंकी दृष्टिमें उपयुक्त पापियोंके साथ बातचीत करना भी अनुचित है।'

भीष्मजी कहते हैं—इसके बाद समस्त देवता, पितर और महान् भाग्यशाली ऋषियोंने प्रमथसे पूछा—'आपलोग प्रत्यक्षरूपसे निशाचर हैं। बनाइये, अपवित्र, अशुद्ध और क्षुद्र मनुष्योंकी क्यों हिंसा करते हैं ? ये कौन-से उपाय हैं जिनका आश्रय सेनेसे आप उनकी हत्या नहीं करते। रथो-घनमन्त्र कौन-कौन-से हैं जिनका उच्चारण करनेसे आप-जैसे निशाचर घर छोड़कर भाग जाते हैं ?—ये सब बातें हमलोग आपके मूँहसे सुनना चाहते हैं।'

प्रमथोंने कहा—जो मनुष्य सदा स्त्री-मह्यासके कारण दूषित रहने, बड़ोंका अपमान करने, मोहनासा मांस खाने, बूझ-बो जड़में सोने, मिरपर मांसका योना देने, विद्योनोंपर रंर रखनेकी जगह सिर रखकर सोने तथा पानोंमें मय-मूत्र एवं

यूक आदि फेंकते हैं, वे सब मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) और अनेकों छिद्रोंवाले होते हैं। ऐसे मनुष्योंको ही हम अपना भय और वध समझते हैं। अब वह उपाय सुनिये, जिससे हम मनुष्योंकी हिंसा करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। जो अपने शरीरमें गोरौचन लगाता, हाथमें 'बचा' लिये रहता, ललाटमें धी और असत धारण करता तथा मांस नहीं खाता तथा जिसके घरमें दिन-रात होमाग्नि प्रज्वलित रहती है, उन मनुष्योंकी हिंसा हमलोग नहीं कर सकते।

महेश्वरने कहा—जिनकी बुद्धि सदा धर्ममें ही लगी रहती है और जो परम श्रद्धालु हैं, उन्हींको महान् फल देनेवाले धर्मका रहस्यसहित उपदेश देना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन धर्मके साथ एक मासतक गौको चारा देता है और स्वयं एक वस्तु भोजन करके रहता है, उसको मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो। गौएँ महान् सौभाग्यशालिनी हैं, ये परम पावन मानी गयी हैं। देवता, असुर और मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको गौओंने धारण किया है। इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य और महान् फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन गौओंको चारा देनेवाला मनुष्य महान् धर्मका उपार्जन करता है। पहले सत्ययुगमें मैने गौओंको अपने पास रहनेकी आज्ञा दी थी। पद्मयोनि ब्रह्माजीने भी इसके लिये मुन्हे बहुत अनुनय-विनय की थी। इसीलिये मेरी गौओंके कुंडमें रहनेवाला वृषभ मुन्हे ऊपर—मेरे रथकी ध्वजामें विराजमान रहता है, अतः गौओंको सदा ही पूजा करनी चाहिये। उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, वे वरदायिनी हैं, इसलिये उपासना करनेपर अभीष्ट वरदान देती हैं। जो एक दिन भी गायको चारा खिलाता है, उसे गौओंकी अनुमतिसे सम्पूर्ण शुभ कर्मोंके फलका चौथाई भाग प्राप्त होता है।

स्कन्दने कहा—देवताओ! अब मेरी मान्यताके अनुसार भी धर्मकी कुछ बातें सुनो। जो मनुष्य नीले रंगवाले सांडके सींगोंमें लगी हुई मिट्टी लेकर उससे तीन दिनतक अभिषेक करता है, वह अपने सारे पापोंको धो डालता है और परलोकमें आधिपत्य प्राप्त करता है, फिर डुबारा जन्म लेनेपर वह महान् शूरवीर होता है। अब धर्मका दूसरा गुण रहस्य सुनो—पूर्णमासी तिथिको चन्द्रोदयके समय साँवके बर्तनमें मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता है, उसे साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, अश्विनी-कुमार, मरुद्गण और वसुदेवता भी ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी वृद्धि होती है। इस प्रकार मैने यह सुखदायक धर्मका रहस्य बतलाया है।

भगवान विष्णु बोले—जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके धृदा और एकाग्रताके साथ देवताओं और



महर्षियोंके बताये हुए धर्मके इन गूढ़ रहस्योंका प्रतिदिन पाठ करता है, उसके यहाँ कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता तथा उसके भयका भी अभाव हो जाता है। यहाँ जिन-जिन धर्मोंका रहस्योंसहित वर्णन किया गया है, वे सभी शुभ एवं परम पवित्र हैं। जो इन्द्रियसंयमपूर्वक उनके मासिक फलोंका पारायण करता है, उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा पापसे निर्लिप्त रहता है। जो इसे पढ़ता, दूसरोंको सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन धर्मोंके आचरणका फल मिलता है। उसका दिया हुआ हव्य-कव्य अक्षय होता है और उसे देवता तथा पितर बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार करते हैं। जो पुरुष शुद्धचित्त होकर पर्वके दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको धर्मके इन रहस्योंका श्रवण कराता है, वह सदा देवता, ऋषि और पितरोंके आदरका पात्र होता है तथा उसकी सर्वदा धर्ममें प्रवृत्ति बनी रहती है।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! देवताओंके बताये हुए धर्मका यह रहस्य मुन्हे व्यासजीने बतलाया था, उसीको मैने तुमसे कहा। एक ओर रत्नोंसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी मिलती हो और दूसरी ओर यह उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो तो उस पृथ्वीको छोड़कर इस ज्ञानका ही श्रवण करना चाहिये। श्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्मत्यागी, निर्दयी, यक्तिवादका सहारा लेकर दुष्टता करनेवाले, गुरुद्रोही तथा अनात्मीय व्यक्तिको इस धर्मका उपदेश नहीं देना चाहिये।

ब्राह्मण और त्याग्यन्न मनुष्योंका वर्णन तथा अयोग्य वान और अन्न ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त

मुद्गिष्ठिरने पूछा—पितामह ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रको किन-किन मनुष्योंका अन्न ग्रहण करना चाहिये ? भोष्मजीने कहा—बेटा ! ब्राह्मणको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिये । शूद्रका अन्न उनके लिये निषिद्ध है । इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके घर भोजन करना चाहिये; किंतु मत्स्यामश्वका विचार न करके सब कुछ खानेवाले और शास्त्रके विरुद्ध आचरण करनेवाले शूद्रोंका अन्न उनके लिये भी त्याग्य है । वैश्योंमें भी जो नित्य अग्निहोत्र करनेवाले, पवित्रतासे रहनेवाले और घातुर्मौस्य व्रतका पालन करनेवाले हैं, उन्हींका अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियोंके ग्रहण करने योग्य है । जो द्विज शूद्रोंका अन्न खाता है, वह समस्त पृथ्वी और सम्पूर्ण मनुष्योंके भलका ही पान और भोजन करता है । शूद्रको सेवासे रहनेवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरककी पातना भोगता है । ब्राह्मणको वेदोंके स्वाध्याय और मनुष्योंके कल्याणकारी कार्योंमें संलग्न रहना चाहिये । क्षत्रियको सबकी रक्षा करने चाहिये और वैश्यको प्रजाके शारीरिक दुष्टिके लिये कृषि और गोरक्षा आदि कार्य करने चाहिये—यही उनके लिये धर्म बतलाया गया है । कृषि, गोरक्षा और व्यापार—ये वैश्यके अपने कर्म हैं, इनके प्रति उसे घृणा नहीं करनी चाहिये । जो अपने वर्णके लिये विहित कर्मका परित्याग करके शूद्रका काम अपनाता है, वह शूद्र ही मानने योग्य है । उसका अन्न कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये । जो ब्राह्मण चिकित्सा करनेवाले, शास्त्र बेचकर जीविका चलानेवाले, ग्रामाध्यक्ष, पुरोहित, वर्षफल धतानेवाले (ज्योतिषी) और वेद-शास्त्रके अतिरिक्त धर्मकी पुस्तकें पढ़नेवाले हैं, वे सब शूद्रके ही समान हैं । जो सज्जका परित्याग करके शूद्रके समान कर्म करनेवाले इन ब्राह्मणोंका अन्न खाता है, वह अमर्यमलक्षणका पाप करके घोर विपत्तिमें पड़ता है । उसका कुल, धर्म और तेज नष्ट हो जाता है तथा वह धर्म-कर्मसे हीन होकर कुत्तकी भाँति तिर्यग्योनिमें प्रान्त होता है । चिकित्सा करनेवालेका अन्न विच्छा, वैश्याका अन्न भूख और कारीरकरका अन्न रक्तके समान माना गया है । विद्या बेचकर जीविका चलानेवाले पुरुषका अन्न भी शास्त्रके ही समान है, अतः साधु पुरुषको उसका परित्याग कर देना चाहिये । जो कर्माद्भुत मनुष्यका अन्न ग्रहण करता है, उसे रक्तका सरोवर बहते हैं । घुगुन-क्षीरका अन्न भोजन करना बहुरहत्याके समान माना गया है । अश्वत्थना और अनादरपूर्वक मिते हुए अन्नको बर्बादि

नहीं ग्रहण करना चाहिये । जो ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन करता है, वह रोगी होता है और उसके कुलका भी संहार हो जाता है । नगररक्षकका अन्न खानेवाला चाण्डाल होता है । गोहत्या करनेवाले, ब्रह्मघाती, शराबे और मृदपत्नीगामी मनुष्योंके यहाँ भोजन करनेवाला ब्राह्मण राक्षस-जुलमें जन्म लेता है । घरोंहट्ट हड़पनेवाले, इतधन तथा नपुंसकका अन्न खानेसे भीलके घरमें जन्म लेना पड़ता है । मुद्गिष्ठिर ! जिसका अन्न नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है, उनका मने विधिपूर्वक परिषय दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ?

मुद्गिष्ठिरने कहा—पितामह ! प्रामः ब्राह्मणोंको ही हृद्य और कथ्यका प्रतिग्रह लेना पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकारके अन्न ग्रहण करनेका अपसर आता है । ऐसी बातमें उन्हें जो पाप लगते हैं, उनका क्या प्रायश्चित्त है—यह बतानेकी कृपा कीजिये ।

भोष्मजीने कहा—राजन् ! महात्मा ब्राह्मणोंको प्रतिग्रह लेने और भोजन करनेके पापसे जित प्रकार छुटकारा मिलता है, वह प्रायश्चित्त में बतला रहा है, मुने—ब्राह्मण यदि धोका दान से तो गायत्री-मन्त्र पढ़कर अग्निमें समिधाकी आहुति करे । तिसका दान सेनेपर भी यही प्रायश्चित्त करना चाहिये । गृह और ममका दान सेनेपर उस समयसे लेकर भूषोंबयतक सड़े रहनेसे ब्राह्मण गृह ही जाता है । भुवर्गका दान लेकर गायत्रीका जप करने और सृष्टे तौरपर काता सोहा धारण करनेसे उसके दोषसे छुटकारा मिलता है । धन, वस्त्र, अन्न, लीर और ईसके रत्नका दान ग्रहण करनेपर भी भुवर्गदानके समान ही प्रायश्चित्त करे । गन्ना, तैल और दुग्धोंका प्रतिग्रह स्वीकार करनेपर विज्ञान स्नान करना चाहिये । धान, फूल, कल, जल, पूजा, जीतके सपने और बहो-दूषका दान सेनेपर तथा धाड़में जूता और छाता ग्रहण करनेपर तो बार गोपत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये । इससे उपर वस्तुओंके प्रतिग्रहका पाप नष्ट हो जाता है । छत्रके समय अथवा निते जननासौच सगा हो, उससे दिये हुए लोहरा दान स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे उसके दोषसे छुटकारा मिलता है । जो ब्राह्मण दूधपानमें बिचे हुए पित्त-धाड़का अन्न भोजन करता है, वह पूर दिन और एक रात व्यतीत होनेपर गृह होता है । ब्राह्मण जिन दिन धाड़-भोजन करे उस दिन संध्य, गायत्री-जप और दुबारा भोजन त्याग दे । इससे उसकी मुक्ति होती है । इतीतिथे अन्न-

यूक आदि फेंकते हैं, वे सब मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) और अनेकों छिद्रोंवाले होते हैं। ऐसे मनुष्योंको ही हम अपना भक्ष्य और वध्य समझते हैं। अब वह उपाय सुनिये, जिससे हम मनुष्योंकी हिंसा करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। जो अपने शरीरमें गीरोचन लगाता, हाथमें 'बचा' लिये रहता, ललाटमें धो और अक्षत धारण करता तथा मांस नहीं खाता तथा जिसके घरमें दिन-रात होमाग्नि प्रज्वलित रहती है, उन मनुष्योंकी हिंसा हमलोग नहीं कर सकते।

महेश्वरने कहा—जिनकी बुद्धि सदा धर्ममें ही लगी रहती है और जो परम श्रद्धालु हैं, उन्हींको महान् फल देनेवाले धर्मका रहस्यसहित उपदेश देना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन धर्मके साथ एक मासतक गौको चारा देता है और स्वयं एक वक्त भोजन करके रहता है, उसको मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो। गौएँ महान् सौभाग्यशालिनी हैं, ये परम पावन मानी गयी हैं। देवता, असुर और मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको गौओंने धारण किया है। इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य और महान् फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन गौओंको चारा देनेवाला मनुष्य महान् धर्मका उपाजन करता है। पहले सत्ययुगमें मैंने गौओंको अपने पास रहनेकी आज्ञा दी थी। पद्मयोनि ब्रह्माजीने भी इसके लिये मुझसे बहुत अनुनय-विनय की थी। इसीलिये मेरी गौओंके ऋणमें रहनेवाला वृषभ मुझसे ऊपर—मेरे रथकी ध्वजामें विराजमान रहता है, अतः गौओंकी सदा ही पूजा करनी चाहिये। उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, वे वरदायिनी हैं, इसलिये उपासना करनेपर अभीष्ट वरदान देती हैं। जो एक दिन भी गायको चारा खिलाता है, उसे गौओंकी अनुमतिसे सम्पूर्ण शुभ कर्मोंके फलका चौथाई भाग प्राप्त होता है।

स्कन्दने कहा—देवताओ! अब मेरी मान्यताके अनुसार भी धर्मकी कुछ बातें सुनो। जो मनुष्य नीले रंगवाले सांडके सींगोंमें लगी हुई मिट्टी लेकर उससे तीन दिनतक अभिषेक करता है, वह अपने सारे पापोंको धो डालता है और परलोकमें आधिपत्य प्राप्त करता है, फिर दुबारा जन्म लेनेपर वह महान् शूरवीर होता है। अब धर्मका दूसरा गुप्त रहस्य सुनो—पूर्णमासी तिथिको चन्द्रोदयके समय ताँबेके बर्तनमें मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता है, उसे साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, अश्विनी-कुमार, मरुद्गण और वसुदेवता भी ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने यह सुखदायक धर्मका रहस्य बतलाया है।

भगवान् विष्णु बोले—जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके श्रद्धा और एकाग्रताके साथ देवताओं और



महापियोंके बताये हुए धर्मके इन गूढ़ रहस्योंका प्रतिदिन पाठ करता है, उसके यहाँ कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता तथा उसके भयका भी अभाव हो जाता है। यहाँ जिन-जिन धर्मोंका रहस्योंसहित वर्णन किया गया है, वे सभी शुभ एवं परम पवित्र हैं। जो इन्द्रियसंयमपूर्वक उनके सामिक फलोंका पारायण करता है, उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा पापसे निर्लिप्त रहता है। जो इसे पढ़ता, दूसरोंको सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन धर्मोंके आचरणका फल मिलता है। उसका दिया हुआ हव्य-कव्य अक्षय होता है और उसे देवता तथा पितर बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार करते हैं। जो पुरुष शुद्धचित्त होकर पर्वके दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको धर्मके इन रहस्योंका श्रवण कराता है, वह सदा देवता, ऋषि और पितरोंके आदरका पात्र होता है तथा उसकी सर्वदा धर्ममें प्रवृत्ति बनी रहती है।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! देवताओंके बताये हुए धर्मका यह रहस्य मुझसे व्यासजीने बतलाया था, उसीको मैंने तुमसे कहा। एक ओर रत्नोंसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी मिलती हो और दूसरी ओर यह उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो तो उस पृथ्वीको छोड़कर इस ज्ञानका ही श्रवण करना चाहिये। श्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्मत्यागी, निर्दयी, यक्तिवादका सहारा लेकर दुष्टता करनेवाले, गुरुद्रोही तथा अनात्मीय व्यक्तिको इस धर्मका उपदेश नहीं देना चाहिये।

ब्राह्मण और त्याग्यत्र मनुष्योंका वर्णन तथा अयोग्य वान और अन्न ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रकी जिन-जिन मनुष्योंका अन्न ग्रहण करना चाहिये ? भोष्मजीने कहा—वेदा ! ब्राह्मणको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिये । शूद्रका अन्न उनके लिये निषिद्ध है । इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके घर भोजन करना चाहिये; किन्तु मश्यामश्याका विचार न करके सब कुछ खानेवाले और शास्त्रके विरुद्ध आचरण करनेवाले शूद्रोंका अन्न उनके लिये भी त्याग्य है । बँवयोंमें भी जो नित्य अन्नहोत्र करनेवाले, पवित्रतासे रहनेवाले और चातुर्मास्य व्रतका पालन करनेवाले हैं, उहाँका अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियोंके ग्रहण करने योग्य है । जो द्विन शूद्रोंका अन्न खाता है, वह समस्त पृथ्वी और सम्पूर्ण मनुष्योंके मलका ही पान और भोजन करता है । शूद्रकी सेवामें रहनेवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरपक्षी पानना भोगता है । ब्राह्मणको वेदोंके स्वाध्याय और मनुष्योंके कल्याणकारी कार्योंमें संलग्न रहना चाहिये । क्षत्रियको सबकी रक्षा करनी चाहिये और वैश्यको प्रजाके शरीरकी पुष्टिके लिये कृषि और गोरक्षा आदि कार्य करने चाहिये—यहाँ उनके लिये धर्म बनाया गया है । कृषि, गोरक्षा और व्यापार—ये वैश्यके अपने धर्म हैं, इनके प्रति उसे पूजा नहीं करनी चाहिये । जो अपने धर्मके लिये विहित कर्मका परित्याग करके शूद्रका काम अपनाता है, वह शूद्र ही मानने योग्य है । उसका अन्न कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये । जो ब्राह्मण चिकित्सा करनेवाले, शस्त्र बेचकर जीविका चलानेवाले, प्रामाथ्यन, पुरोहित, बर्षकन बतानेवाले (न्योतिथि) और वेद-शास्त्रके अतिरिक्त धर्मकी पुस्तकें पढ़नेवाले हैं, वे सब शूद्रके ही समान हैं । जो सज्जाका परित्याग करके शूद्रके समान कर्म करनेवाले इन ब्राह्मणोंका अन्न खाता है, वह अमश्यामश्याका पाप करके घोर विपत्तिमें पड़ता है । उसका कुल, वीर्य और तेज नष्ट हो जाता है तथा वह धर्म-कर्मसे हीन होकर कुलेकी भाँति निर्गम्योनिकी प्राण होता है । चिकित्सा करनेवालेका अन्न बिष्ठा, वैश्याका अन्न मूत्र और कारीगरका अन्न रबनके समान माना गया है । विद्या बेचकर जीविका चलानेवाले पुत्रपत्नी अन्न भी शूद्रान्नके ही समान है, अन्तः साधु पुत्रपत्नी उसका परित्याग कर देना चाहिये । जो बर्षाद्भुत मनुष्यका अन्न ग्रहण करता है, उसे रबनका सरोवर कहते हैं । क्षुण्ण-क्षोरका अन्न भोजन करना ब्रह्महत्याके समान माना गया है । भव्तेयना और अनाहरपूर्वक भित्ति हुए अन्नको बर्दानि

नहीं ग्रहण करना चाहिये । जो ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन करता है, वह रोगी होता है और उसके कुलका भी संसार हो जाता है । नगररक्षका अन्न मानेवाला चाण्डाल होता है । गोरक्षा करनेवाले, ब्रह्मघातो, शराबी और गुरुद्वन्द्वीनामी मनुष्योंके यहाँ भोजन करनेवाला ब्राह्मण राक्षस-भुक्तमें जन्म लेता है । धरोहर रहनेवाले, वृत्तान्त तथा नृनृनृका अन्न खानेमें भील्लोके घरमें जन्म लेना पड़ता है । युधिष्ठिर ! जिसका अन्न नहीं खाने योग्य और जिनका खाने योग्य है, उनका मैंने विधिपूर्वक परिचय दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ?

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! प्रायः ब्राह्मणोंको ही हृष्य और बध्यका प्रतिग्रह लेना पड़ता है और उन्हें ही नाता प्रकारके अन्न ग्रहण करनेका अवसर आता है । ऐसी बशामें उन्हें जो पाप लगते हैं, उनका ब्रह्म प्रायश्चित्त है—यह बतानेकी कृपा कीजिये ।

भोष्मजीने कहा—राजन् ! मर्यादा ब्राह्मणोंको प्रतिग्रह लेने और भोजन करनेके पानमें त्रिम प्रकार छुटकारा मिलता है, वह प्रायश्चित्त में बना रहा है, मुनो—ब्राह्मण यदि धोका दान से तो पापत्रो-मन्त्र पढ़कर अग्निमें तमिप्रार्थी आर्तुति करे । तिलका दान सेनेर भी यही प्रायश्चित्त करना चाहिये । गूद और ननकका दान सेनेर इन तमजने सेकर सुषोडपत्तक छड़े रहनेमें ब्राह्मण शूद्र हो जाता है । सुबर्गका दान सेकर पापत्रोका अन्न करने और खाने सौरवर काता सोहा धारण करनेसे उसके दोषमें छुटकारा मिलता है । धन, वस्त्र, अन्न, खीर और इसके रमका दान ग्रहण करनेर भी सुबर्गदानके समान ही प्रायश्चित्त करे । गन्ना, तेल और कुशोंका प्रतिग्रह स्वोहार करनेर विहात स्नान करना चाहिये । धान, फल, जल, पुत्रा, खीरको सप्यो और शरी-रुद्धका दान सेनेर तथा ब्राह्मणें जूना और छाया ग्रहण करनेर ती बार नौवकीमन्त्रका अन्न करना चाहिये । इनमें उरन बन्धुओंके प्रतिग्रहका पाप नष्ट हो जाता है । पुरुषके मदन अथवा जिने जननामोच तथा हो, उसके दिने हुए सेनका दान स्वोहार करनेर तीन रात्र उरनाग करनेमें उसके दोषमें छुटकारा मिलता है । जो ब्राह्मण हृष्यरगमें दिने हुए विन्-भादका अन्न भोजन करता है, वह एक दिन और एक रात्र मृतोन्न होनेर शूद्र होता है । ब्राह्मण त्रिम दिन चाण्ड-भोजन करे उस दिन मीष्ठा, पाण्डो-अन्न और कुहावा भोजन त्याग दे । इनमें उरकी गूद होनी है । इमंदिने अन्न-

यूक आदि फेंकते हैं, वे सब मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) और अनेकों छिद्रोंवाले होते हैं। ऐसे मनुष्योंको ही हम अपना भक्ष्य और वष्य समझते हैं। अब वह उपाय सुनिये, जिससे हम मनुष्योंकी हिंसा करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। जो अपने शरीरमें गौरीचन लगाता, हाथमें 'बचा' लिये रहता, ललाटमें धो और अक्षत धारण करता तथा मांस नहीं खाता तथा जिसके घरमें दिन-रात होमाग्नि प्रज्वलित रहती है, उन मनुष्योंकी हिंसा हमलोग नहीं कर सकते।

महेश्वरने कहा—जिनकी वृद्धि सदा धर्ममें ही लगी रहती है और जो परम श्रद्धालु हैं, उन्हींको महान् फल देनेवाले धर्मका रहस्यसहित उपदेश देना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन धर्मके साथ एक मासतक गौको चारा देता है और स्वयं एक वस्तु भोजन करके रहता है, उसको मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो। गौएँ महान् सौभाग्यशालिनी हैं, वे परम पावन मानी गयी हैं। देवता, असुर और मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको गौओंने धारण किया है। इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य और महान् फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन गौओंको चारा देनेवाला मनुष्य महान् धर्मका उपार्जन करता है। पहले सत्ययुगमें मैंने गौओंको अपने पास रहनेकी आज्ञा दी थी। पद्मयोनि ब्रह्माजीने भी इसके लिये मुझसे बहुत अनुमति-विनय की थी। इसीलिये मेरी गौओंके झुंडमें रहनेवाला वृषभ मुझसे ऊपर—मेरे रथकी ध्वजामें विराजमान रहता है, अतः गौओंको सदा ही पूजा करनी चाहिये। उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, वे वरदायिनी हैं, इसलिये उपासना करनेपर अभीष्ट वरदान देती हैं। जो एक दिन भी गायको चारा खिलाता है, उसे गौओंकी अनुमतिसे सम्पूर्ण शुभ कर्मोंके फलका चौथाई भाग प्राप्त होता है।

स्कन्दने कहा—देवताओ! अब मेरी मान्यताके अनुसार भी धर्मकी कुछ बातें सुनो। जो मनुष्य नीले रंगवाले साँड़के साँगीमें लगी हुई मिट्टी लेकर उससे तीन दिनतक अभिषेक करता है, वह अपने सारे पापोंको धो डालता है और परलोकमें आधिपत्य प्राप्त करता है, फिर दुवारा जन्म लेनेपर वह महान् शूरवीर होता है। अब धर्मका दूसरा गुप्त रहस्य सुनो—पूर्णाभासी तिथिको चन्द्रोदयके समय ताँबेके बर्तनमें मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता है, उसे साध्य, रुद्र, आदित्य, विष्वेदेव, अश्विनी-कुमार, मरुद्गण और वसुदेवता भी प्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने यह सुखदायक धर्मका रहस्य बतलाया है।

भगवान् विष्णु बोले—जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके श्रद्धा और एकाग्रताके साथ देवताओं और



महर्षियोंके बताये हुए धर्मके इन गूढ़ रहस्योंका प्रतिदिन पाठ करता है, उसके यहाँ कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता तथा उसके भयका भी अभाव हो जाता है। यहाँ जिन-जिन धर्मोंका रहस्योंसहित वर्णन किया गया है, वे सभी शुभ एवं परम पवित्र हैं। जो इन्द्रियसंयमपूर्वक उनके मार्मिक फलोंका पारायण करता है, उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा पापसे निलिप्त रहता है। जो इसे पढ़ता, दूसरोंको सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन धर्मोंके आचरणका फल मिलता है। उसका दिया हुआ हव्य-कव्य अक्षय होता है और उसे देवता तथा पितर बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार करते हैं। जो पुरुष शुद्धचित्त होकर पर्वके दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको धर्मके इन रहस्योंका श्रवण कराता है, वह सदा देवता, ऋषि और पितरोंके आदरका पात्र होता है तथा उसकी सर्वदा धर्ममें प्रवृत्ति बनी रहती है।

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! देवताओंके बताये हुए धर्मका यह रहस्य मुझसे व्यासजीने बतलाया था, उसीको मैंने तुमसे कहा। एक ओर रत्नोंसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी मिलती हो और दूसरी ओर यह उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो तो उस पृथ्वीको छोड़कर इस ज्ञानका ही श्रवण करना चाहिये। श्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्मत्यागी, निर्दयी, यक्तिवादका सहारा लेकर दुष्टता करनेवाले, गुरुद्वेषी तथा अनात्मिय व्यक्तिको इस धर्मका उपदेश नहीं देना चाहिये।

ब्राह्मण और त्याग्याग्र मनुष्योंका वर्णन तथा अयोग्य वान और अन्न ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रको किन-किन मनुष्योंका अन्न ग्रहण करना चाहिये ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! ब्राह्मणको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिये । शूद्रका अन्न उनके लिये निषिद्ध है । इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके घर भोजन करना चाहिये; किन्तु भक्ष्यामक्षयका विचार न करके सब कुछ खानेवाले और शास्त्रके विषय आचरण करनेवाले शूद्रोंका अन्न उनके लिये भी त्याग्य है । बंस्योंमें भी जो नित्य अग्निहोत्र करनेवाले, पवित्रतासे रहनेवाले और चातुर्मास्य प्रसक्ता पालन करनेवाले हैं, उन्हेंका अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियोंके ग्रहण करने योग्य है । जो द्विज शूद्रोंका अन्न खाता है, वह समस्त पृथ्वी और सम्पूर्ण मनुष्योंके मलका ही पान और भोजन करता है । शूद्रको सेवामें रहनेवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरकको यातना भोगता है । ब्राह्मणको वेदोंके स्वाध्याय और मनुष्योंके कल्याणकारी कर्ममें संलग्न रहना चाहिये । क्षत्रियको सबको रक्षा करने चाहिये और वैश्यको प्रजाके शरीरकी पुष्टिके लिये कृषि और गोरक्षा आदि कर्म करने चाहिये—यही उनके लिये धर्म बताया गया है । कृषि, गोरक्षा और ध्याधार—ये वैश्योंके अपने कर्म हैं, इनके प्रति उसे धृणा नहीं करनी चाहिये । जो अपने धर्मके लिये विहित कर्मका परित्याग करके शूद्रका काम अपनाता है, वह शूद्र ही मानने योग्य है । उसका अन्न कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये । जो ब्राह्मण चिकित्सा करनेवाले, शस्त्र बेचकर जीविका चलानेवाले, ग्रामाध्यक्ष, पुरोहित, वर्षफल बतानेवाले (ज्योतिषी) और वेद-शास्त्रके अतिरिक्त स्वयंपंकी पुस्तकें पढ़नेवाले हैं, ये सब शूद्रके ही समान हैं । जो सज्जकर परित्याग करके शूद्रके समान कर्म करनेवाले इन ब्राह्मणोंका अन्न खाता है, वह अमध्यमक्षयका पाप करके घोर विपत्तिमें पड़ता है । उसका कुल, बौध्द और तेज नष्ट हो जाता है तथा वह धर्म-कर्मसे हीन होकर कुत्सेकी भाँति तिर्यग्योनिको प्राप्त होता है । धिक्खिता करनेवालेका अन्न विष्ठा, वेरयाका अन्न मूत्र और कारीगरका अन्न रतके समान माना गया है । विद्या बेचकर जीविका चलानेवाले पुण्यका अन्न भी शूद्रके ही समान है, अतः साधु पुण्यको उसका परित्याग कर देना चाहिये । जो कलत्रित मनुष्यका अन्न ग्रहण करता है, उसे रक्षक सरोवर बहते हैं । सुगुल-क्षीरका अन्न भोजन करना ब्रह्महत्याके समान माना गया है । अन्नसेना और अनावरपूर्वक मिले हुए अन्नको बढ़ादि

नहीं ग्रहण करना चाहिये । जो ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन करता है, वह रोगी होता है और उसके कुलका भी संहार हो जाता है । नगररक्षकका अन्न खानेवाला चाण्डाल होता है । गौहत्या करनेवाले, बहध्याती, शराबी और मुख्यत्वोत्तमी मनुष्योंके यहाँ भोजन करनेवाला ब्राह्मण राक्षस-कुलमें जन्म लेता है । धरोहर हड़पनेवाले, कृतघ्न तथा नर्पुत्रका अन्न खानेसे भोसोंके घरमें जन्म लेना पड़ता है । युधिष्ठिर ! जिसका अन्न नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है, उनका मैंने विधिपूर्वक परिचय दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ?

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! प्रायः ब्राह्मणोंको ही हृष्य और कम्पका प्रतिग्रह लेना पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकारके अन्न ग्रहण करनेका अवसर आता है । ऐसी दशामें उन्हें जो पाप लगते हैं, उनका क्या प्रायश्चित्त है—यह बतानेको कृपा कीजिये ।

भीष्मजीने कहा—राजन् ! महात्मा ब्राह्मणोंको प्रतिग्रह लेने और भोजन करनेके पापसे जित प्रकार छूटकारा मिलता है, वह प्रायश्चित्त में बता रहा हूँ, पुत्री—ब्राह्मण यदि घोका दान से तो गायत्री-मन्त्र पढ़कर अग्निमें समिधाको आहुति करे । तिलका दान सेनेपर भी यही प्रायश्चित्त करना चाहिये । राहू और मकरका दान सेनेपर उस समयसे लेकर सूर्योदयतक उसे रहनेसे ब्राह्मण शूद्र हो जाता है । सुबर्गका दान सेकर गायत्रीका जप करने और उसे तोरपर काला सोहा धारण करनेसे उसके दोपसे छूटकारा मिलता है । धान, वस्त्र, अन्न, धार और ईसके रसका दान ग्रहण करनेपर भी सुबर्गदानके समान ही प्रायश्चित्त करे । गन्ना, तेल और बुजाँका प्रतिग्रह स्वीकार करनेपर विकास स्नान करना चाहिये । धान, फल, फल, जल, पुसा, औंठी लपनी और बही-हूधका दान सेनेपर तथा धात्रमें जूता और छाता ग्रहण करनेपर सी घार गायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये । इससे उक्त वस्तुओंके प्रतिग्रहका पाप नष्ट हो जाता है । घटलके समय अथवा जिते जननाशीच सगा हो, उसके विदे हुए संतका दान स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे उसके दोपसे छूटकारा मिलता है । जो ब्राह्मण कृष्णवर्णमें विदे हुए पितृ-प्रायश्चित्त अन्न भोजन करता है, वह एक दिन और एक रात व्यतीत होनेपर शूद्र होता है । ब्राह्मण जिग रिन धात्र-प्रेक्षण करे उस दिन संख्या, गायत्री-जप और बुभारा भोजन श्याम वे । इससे उगाही शूद्र होनी है । इसीलिये अप-

थूक आदि फेंकते हैं, वे सब मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) और अनेकों छिद्रोंवाले होते हैं। ऐसे मनुष्योंको ही हम अपना भक्ष्य और वधय समझते हैं। अब वह उपाय सुनिये, जिससे हम मनुष्योंकी हिंसा करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। जो अपने शरीरमें गोरोचन लगाता, हाथमें 'वचा' लिये रहता, ललाटमें घी और अक्षत धारण करता तथा मांस नहीं खाता तथा जिसके घरमें दिन-रात होमाग्नि प्रज्वलित रहती है, उन मनुष्योंकी हिंसा हमलोग नहीं कर सकते।

महेश्वरने कहा—जिनकी वृद्धि सदा धर्ममें ही लगी रहती है और जो परम श्रद्धालु हैं, उन्हींको महान् फल देनेवाले धर्मका रहस्यसहित उपदेश देना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन धर्मके साथ एक मासतक गौको चारा देता है और स्वयं एक वक्षत भोजन फरके रहता है, उसको मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो। गौएँ महान् सौभाग्यशालिनी हैं, ये परम पावन मानी गयी हैं। देवता, असुर और मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको गौओंने धारण किया है। इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य और महान् फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन गौओंको चारा देनेवाला मनुष्य महान् धर्मका उपार्जन करता है। पहले सत्ययुगमें मैंने गौओंको अपने पास रहनेकी आज्ञा दी थी। पद्मयोनि ब्रह्माजीने भी इसके लिये मुझसे बहुत अनुनय-विनय की थी। इसीलिये मेरी गौओंके मुँडमें रहनेवाला वृषभ मुझसे ऊपर—मेरे रथकी ध्वजामें विराजमान रहता है, अतः गौओंकी सदा ही पूजा करनी चाहिये। उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, वे वरदायिनी हैं, इसलिये उपासना करनेपर अभीष्ट वरदान देती हैं। जो एक दिन भी गायको चारा खिलाता है, उसे गौओंकी अनुमतिसे सम्पूर्ण शुभ कर्मोंके फलका चौथाई भाग प्राप्त होता है।

स्कन्दने कहा—देवताओ! अब मेरी मान्यताके अनुसार भी धर्मकी कुछ बातें सुनो। जो मनुष्य नीले रंगवाले साँड़के सींगोंमें लगी हुई मिट्टी लेकर उससे तीन दिनतक अभिषेक करता है, वह अपने सारे पापोंको धो डालता है और परलोकमें आधिपत्य प्राप्त करता है, फिर दुबारा जन्म लेनेपर वह महान् शूरवीर होता है। अब धर्मका दूसरा गुप्त रहस्य सुनो—पूर्णमासी तिथिको चन्द्रोदयके समय तांबेके बर्तनमें मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता है, उसे साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, अश्विनी-कुमार, मरुद्गण और वसुदेवता भी ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने यह सुखदायक धर्मका रहस्य बतलाया है।

भगवान् विष्णु बोले—जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके श्रद्धा और एकाग्रताके साथ देवताओं और



महर्षियोंके बताये हुए धर्मके इन गूढ़ रहस्योंका प्रतिदिन पाठ करता है, उसके यहाँ कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता तथा उसके भयका भी अभाव हो जाता है। यहाँ जिन-जिन धर्मोंका रहस्योंसहित वर्णन किया गया है, वे सभी शुभ एवं परम पवित्र हैं। जो इन्द्रियसंयमपूर्वक उनके मार्मिक फलोंका पारायण करता है, उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा पापसे निलिप्त रहता है। जो इसे पढ़ता, दूसरोंको सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन धर्मोंके आचरणका फल मिलता है। उसका दिया हुआ हृद्य-ऋष्य अक्षय होता है और उसे देवता तथा पितर बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार करते हैं। जो पुरुष शुद्धचित्त होकर पर्वके दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको धर्मके इन रहस्योंका श्रवण कराता है, वह सदा देवता, ऋषि और पितरोंके आदरका पात्र होता है तथा उसकी सर्वदा धर्ममें प्रवृत्ति बनी रहती है।

भौष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! देवताओंके बताये हुए धर्मका यह रहस्य मुझसे व्यासजीने बतलाया था, उसीको मैंने तुमसे कहा। एक ओर रत्नोंसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी मिलती हो और दूसरी ओर यह उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो तो उस पृथ्वीको छोड़कर इस ज्ञानका ही श्रवण करना चाहिये। श्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्मत्यागी, निर्दयी, यक्तिवादका सहारा लेकर दुष्टता करनेवाले, गुरुद्रोही तथा अनात्मीय व्यक्तिको इस धर्मका उपदेश नहीं देना चाहिये।

ब्राह्मण और त्याज्यान्न मनुष्योंका वर्णन तथा अयोग्य वान और अन्न ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रको किन-किन मनुष्योंका अन्न ग्रहण करना चाहिये ?

भीष्मजीने कहा—बेटा ! ब्राह्मणको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिये । शूद्रका अन्न उनके लिये निषिद्ध है । इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके घर भोजन करना चाहिये ; किंतु भक्ष्यामक्षयका विचार न करके सब कुछ खानेवाले और शास्त्रके विरुद्ध आचरण करनेवाले शूद्रको अन्न उनके लिये भी त्याज्य है । वैश्योंमें भी जो नित्य अग्निहोत्र करनेवाले, पवित्रतासे रहनेवाले और चातुर्मास्य व्रतका पालन करनेवाले हैं, उन्हींका अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियोंके ग्रहण करने योग्य है । जो द्विज शूद्रोंका अन्न खाता है, वह समस्त पृथ्वी और सम्पूर्ण मनुष्योंके मलका ही पान और भोजन करता है । शूद्रको सेवामें रहनेवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरककी यातना भोगता है । ब्राह्मणको वेदोंके स्वाध्याय और मनुष्योंके कल्याणकारी कार्योंमें संलग्न रहना चाहिये । क्षत्रियोंको सबकी रक्षा करनी चाहिये और वैश्यको प्रजाके शरीरकी पुष्टिके लिये कृषि और गोरक्षा भावि कार्य करने चाहिये—यही उनके लिये धर्म बताया गया है । कृषि, गोरक्षा और व्यापार—ये वैश्यके अपने कर्म हैं, इनके प्रति उसे धृष्टा नहीं करनी चाहिये । जो अपने धर्मके लिये बहिष्कृत कर्मका परित्याग करके शूद्रका काम अपनाता है, वह शूद्र ही मानने योग्य है । उसका अन्न कर्मों नहीं ग्रहण करना चाहिये । जो ब्राह्मण चिकित्सा करनेवाले, शास्त्र ब्येचकर जीविका चलानेवाले, प्रामाण्यध, पुरोहित, वयंकल मतानेवाले (ज्योतिषी) और वेद-शास्त्रके अतिरिक्त धर्मकी पुस्तकें पढ़नेवाले हैं, वे सब शूद्रके ही समान हैं । जो सज्जाका परित्याग करके शूद्रके समान कर्म करनेवाले इन ब्राह्मणोंका अन्न खाता है, वह अमक्षयमक्षणका पाप करके घोर विपत्तिमें पड़ता है । उसका कुल, वीर्य और तेज नष्ट हो जाता है तथा वह धर्म-कर्ममें हीन होकर कुत्तोंकी भाँति तिर्यग्योनिको प्राप्त होता है । चिकित्सा करनेवालेका अन्न बिच्छा, वेगयाका अन्न मूत्र और कारीगरका अन्न रक्तके समान माना गया है । विद्या ब्येचकर जीविका चलानेवाले पुरुषका अन्न भी शूद्रात्रके ही समान है, अतः साधु पुरुषको उसका परित्याग कर देना चाहिये । जो कलकृत मनुष्यका अन्न ग्रहण करता है, उसे रक्तका सरोवर कहते हैं । चणुल-खोरका अन्न भोजन करना ब्रह्महत्याके समान माना गया है । अयहैसना और अनावरपूर्वक मिते हुए अन्नको क्वापि

नहीं ग्रहण करना चाहिये । जो ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन करता है, वह रोगी होता है और उसके कुलका भी संहार हो जाता है । नगररक्षकका अन्न खानेवाला चाण्डाल होता है । गोहत्या करनेवाले, ब्रह्मघाती, शरावी और मुद्रपत्नीगामी मनुष्योंके यहाँ भोजन करनेवाला ब्राह्मण राक्षस-कुलमें जन्म लेता है । धरोहर हड़पनेवाले, कृतघ्न तथा नपुंसकका अन्न खानेसे भीलोंके घरमें जन्म लेना पड़ता है । युधिष्ठिर ! जिसका अन्न नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है, उनका मैंने विधिपूर्वक परिचय दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ?

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! प्रायः ब्राह्मणोंको ही हृष्य और कप्यका प्रतिग्रह लेना पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकारके अन्न ग्रहण करनेका अवसर आता है । ऐसी बशामें उन्हें जो पाप लगते हैं, उनका क्या प्रायश्चित्त है—यह बतानेकी कृपा कौजिये ।

भीष्मजीने कहा—राजन् ! महत्त्वा ब्राह्मणोंको प्रतिग्रह लेने और भोजन करनेके पापसे जिस प्रकार छुटकारा मिलता है, वह प्रायश्चित्त मैं बता रहा हूँ, सुनो—ब्राह्मण यदि धीका दान से तो गायत्री-मन्त्र पढ़कर अग्निमें समिधाकी आहुति करे । तिलका दान सेनेपर भी यही प्रायश्चित्त करना चाहिये । शूद्र और नमकका दान सेनेपर उस समयसे लेकर सूर्योदयतक पड़े रहनेसे ब्राह्मण शूद्र हो जाता है । सुवर्णका दान लेकर गायत्रीका जप करने और सुते तौरपर काला सोहा धारण करनेसे उसके दोषसे छुटकारा मिलता है । धान, यज्ञ, अन्न, खीर और ईसके रसका दान ग्रहण करनेपर भी सुवर्णदानके समान ही प्रायश्चित्त करे । घना, तेल और कुशोंका प्रतिग्रह स्वीकार करनेपर विकल स्नान करना चाहिये । धान, फूल, फल, जल, पूजा, जीको लप्ती और दही-दूधका दान सेनेपर तथा धाड़में जूता और छाता ग्रहण करनेपर तो बार गौयत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये । इससे उक्त वस्तुओंके प्रतिग्रहका पाप नष्ट हो जाता है । ग्रहणके समय अथवा जिसे जननाशीब लगा हो, उसके दिये हुए लोतका दान स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे उसके दोषसे छुटकारा मिलता है । जो ब्राह्मण कृष्णपदामें किये हुए पितृ-धाड़का अन्न भोजन करता है, वह एक दिन और एक रात व्यतीत होनेपर शूद्र होता है । ब्राह्मण जिस दिन धाड़-भोजन करे उस दिन संध्या, गायत्री-जप और दुबारा भोजन त्याग दे । इससे उसकी शुद्धि होती है । इसीलिये अप-

ब्राह्मणकालमें पितरोंके श्राद्धका विधान किया गया है (जिससे सबैरेकी संध्योपासना हो जाय और शामको पुन-भोजनकी आवश्यकता ही न पड़े)। ब्राह्मणोंको एक दिन पहले श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहिये, जिससे वे श्राद्धमें भलीभाँति भोजन कर सकें। जिसके घर किसीकी मृत्यु हुई हो, उसके यहाँ मरणाशौचके तीसरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण बारह दिनोंतक त्रिकाल स्नान करनेसे शुद्ध होता है। बारह दिन स्नानका नियम पूरा करके तेरहवें दिन वह विशेष रूपसे स्नान आदिके द्वारा पवित्र हो ब्राह्मणोंको हविष्य भोजन करावे तब उसके पापसे मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य किसीके यहाँ मरणाशौचमें दस दिनतक अन्न खाता है, उसे गायत्रीमन्त्र, रँवत साम, कूष्माण्ड अनुवाक और अघमर्षणका जप करना चाहिये। ये ही उक्त पापके प्रायश्चित्त हैं। इसी प्रकार जो मरणाशौचवाले घरमें लगातार तीन रात भोजन करता है, वह ब्राह्मण सात दिनोंतक त्रिकाल स्नान करनेसे शुद्ध होता है। यह प्रायश्चित्त करनेके

वाद ही उसे सिद्धि मिलती और सिरपर आनेवाली भारी विपत्ति टलती है। जो ब्राह्मण शूद्रके साथ एक पात्रमें भोजन कर लेता है, उसके लिये कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है। यदि ब्राह्मण वैश्यके साथ एक पात्रमें भोजन कर ले तो वह तीन राततक व्रत करनेपर उसके पापसे मुक्त होता है। क्षत्रियके साथ एक पात्रमें भोजन करनेवाला ब्राह्मण वस्त्रसहित स्नान करनेसे शुद्ध होता है। ब्राह्मणका तेज उसके साथ भोजन करनेवाले शूद्रके कुलका, वैश्यके पशु और बान्धवोंका तथा क्षत्रियकी लक्ष्मी का नाश कर डालता है। इसके लिये प्रायश्चित्त और शान्ति-होम करना चाहिये। गायत्री, रँवत साम, पवित्रेष्टि, कूष्माण्ड, अनुवाक और अघमर्षण मन्त्रका जप भी आवश्यक है। इससे पापकी निवृत्ति होती है। किसीका जूठा अथवा उसके साथ एक वर्तनमें भोजन नहीं करना चाहिये। प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर गोरोचन, दूर्वा और हल्दी आदि माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करना चाहिये।

दृष्टान्तपूर्वक दानकी श्रेष्ठता और पाँच प्रकारके दानोंका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! आप कहते हैं दान और तप दोनोंसे ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है; किंतु इस पृथ्वीपर इन दोनोंमें श्रेष्ठ कौन-सा है ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाले जिन धर्मात्मा राजाओंने दानजनित पुण्यके प्रभावसे बहुतसे उत्तम लोक प्राप्त किये हैं, उनका नाम बता रहा हूँ, मुनी—लोकमान्य महर्षि आत्रेय अपने शिष्योंको निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकमें गये हैं। काशीके राजा प्रतङ्गने अपने प्यारे पुत्रको ब्राह्मणकी सेवामें अर्पण कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस लोकमें अनुपम कीर्ति मिली और परलोकमें भी वे अक्षय आनन्दका उपभोग कर रहे हैं। संकृतिनन्दन राजा रन्तिदेवने महात्मा वसिष्ठ मुनिको विधिवत् अर्घ्य-दान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति हुई। देवावृष नामक राजा यज्ञमें सोनेकी सौ कड़ियोंवाले दिव्य छत्रका दान करके स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं। सूर्यपुत्र कर्ण अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा महाराज जनमेजय ब्राह्मणको सवारी और गौ दान करके उत्तम लोकोंमें गये हैं। राजर्षि वृषार्दाभने द्विजोंको नाना प्रकारके रत्न और रमणीय गृह प्रदान करके स्वर्गलोकमें स्थान प्राप्त किया है। विदर्भके पुत्र राजा निमिने अगस्त्य मुनिको अपनी कन्या और राज्यका दान करके पुत्र, पत्नी और बान्धवोंसहित स्वर्गमें

निवास किया है। महायशस्वी परशुरामजीने ब्राह्मणको भूमि-दान करके उन अक्षय लोकोंको प्राप्त किया है, जिन्हें पानेकी मनमें कल्पना भी नहीं हो सकती। एक बार संसारमें वर्षा न होनेपर मुनिवर वसिष्ठजीने समस्त प्राणियोंको जीवन-दान दिया था, जिससे उन्हें अक्षय लोकोंकी प्राप्ति हुई। राजर्षि कक्षसेन महात्मा वसिष्ठको अपना सर्वस्व अर्पण करके स्वर्गमें गये हैं। कर्णधमके पौत्र और अविश्वित्के पुत्र राजा मरुत्तने अङ्गिरा मुनिको अपनी कन्या देकर स्वर्गमें स्थान पाया है। पाञ्चाल देशके धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्तने निधि नामक शङ्खका दान करके परम गति प्राप्त की है। मनुके पुत्र राजा सुद्युम्नने महात्मा लिखितको धर्मानुसार दण्ड देकर उत्तम लोकोंमें स्थान प्राप्त किया है। महान् यशस्वी राजर्षि सहस्रचित्य ब्राह्मणके लिये अपने प्यारे प्राणोंकी बलि देकर श्रेष्ठ लोकमें गये हैं। महाराज शत-द्युम्नने मीद्गल्य नामक ब्राह्मणको समस्त कामनाओंसे परिपूर्ण सुवर्णमय महल दान देकर स्वर्ग प्राप्त किया है। राजा समन्युने भक्ष्य-भोज्य पदार्थोंकी पर्वतोंके समान ढेरी लगाकर उसे शाण्डिल्यको दान दिया था, इससे उन्हें स्वर्गकी प्राप्ति हुई। अत्यन्त तेजस्वी शाल्वनरेश द्युतिमान्ने ऋचीक मुनिको राज्य देकर उत्तम लोक पाया है। राजर्षि मदिराश्व अपनी सुन्दरी कन्या हिरण्यहस्तको देकर देवलोकके निवासी

हुए। राजर्षि सोमपादने ऋष्यभृङ्ग मुनिको अपनी शान्ता नामवाली कन्या दान की थी, इससे उनको समस्त कामनाएँ पूर्ण हुईं। राजर्षि भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या हंतीको कौत्स ऋषिको सेवामें देकर अशय सोकोंमें गये हैं। राजा भगीरथने कौहलनामक ब्राह्मणको एक सात गोएँ दान कीं, इससे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुए। मुद्घिष्ठिर ! ये तथा और भी बहुतसे राजा दान और तपस्याके प्रभावसे बारंबार स्वर्गको जाते और पुनः वहाँसे इस लोकमें सौट आते हैं। जिन गृहस्थोंने दान और तपस्याके बलसे उत्तम लोकोंपर विजय पायी है, उनको कीर्ति, जगतक यह पृथ्वी कायम है, सबक बनी रहेगी। यह शिष्ट पुत्र्योंका खरिद बतलाया गया है। ये सब नरेश दान, यत और संतानोत्पादन करके स्वर्गमें प्रतिष्ठित हुए हैं। तुम भी सदा दान करते रहो। सुम्हारी बुद्धि दान और यतकी क्रियामें संलग्न हो धर्मकी उन्नति करती रहे। अब संध्या हो गयी है, इस समय यदि सुम्हारे मनमें कुछ संदेह धाकी रह गये हों तो उनका समाधान कल सवेरे करूँगा।

(दूसरे दिन प्रातःकाल) मुद्घिष्ठिरने पूछा—पितामह ! अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि दान किसको देना चाहिये ? किन कारणोंसे देना चाहिये ? और दानके कितने प्रकार हैं ? भीष्मजीने कहा—कुन्तीनन्दन ! सभी वर्णके लोगोंको

दान किस प्रकार करना चाहिये, यह बतला रहा है, मुनी— दानके पाँच हेतु हैं—धर्म, अर्थ, भय, कामना और दया। इन्होंने यह पाँच प्रकारका माना गया है। दान करनेवाला मनुष्य इतनेकेमें कीर्ति और परलोकमें उत्तम सुख पाता है। इसलिये ईर्ष्यारहित होकर ब्राह्मणोंको अथवा दान देना चाहिये, यह धर्ममूलक दान बहलाता है। 'अमुक मनुष्य मुझे दान देता है अपना देगा या अमुकने मुझे दान दिया है' यावकीके भूँसे ये बातें सुनकर कीर्तिको इच्छामें जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अर्थमूलक दान है। 'न मैं इसका हूँ न यह मेरा है, तो भी यदि इसको कुछ न दूँ तो यह अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर ब्राह्मण' यह सोचकर विद्वान् पुत्र्य कितनी मूल्यको जो दान देता है, वह भयनिमित्तक दान है। 'यह मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ' यह विचारकर बुद्धिमान् मनुष्य अपने मित्रको जो कुछ देता है, वह कामना-मूलक दान है। 'यह बेचारा बड़ा गरीब है और मुझे भूँह खोलकर माँग रहा है, थोड़ा देनेसे भी बहुत संतुष्ट होगा' यह विचारकर खरिद मनुष्यके लिये यदि कुछ दिया जाता है तो यह दयानिमित्तक दान बहलाता है। इस तरह पुत्र्य और कीर्तिको बढ़ानेवाला पाँच प्रकारका दान बतलाया गया है। प्रजापतिका वचन है कि 'सबको अपनी शक्तिके अनुसार दान अथवा करना चाहिये।'

तपस्या करते हुए धीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका प्रभाव देयना और नारदजीका शिव-पार्वतीके धर्मविषयक संवादका वर्णन करना

मुद्घिष्ठिरने कहा—पितामह ! आप हमारे कुलमें सब शास्त्रोंके जानकार और अत्यन्त बुद्धिमान् हैं; अतः मैं आपके मुखसे अब ऐसे विषयका वर्णन सुनना चाहता हूँ, जो धर्म और अर्थमें युक्त, सबिष्यमें सुल्य देनेवाला और संसारके लिये अद्भुत हो। हमारे बन्धु-याग्यधर्मोंको यह कुलम अवसर प्राप्त हुआ है, आपके सिवा दूसरा कोई सब धर्मोंका उपदेश करने-वाला महापुत्र्य हमें नहीं मिल सकता; अतः इन भगवान् धीकृष्ण और सम्पूर्ण राजाओंके सामने मेरा और मेरे भाइयोंका प्रिय करनेके लिये आप पूछे हुए विषयका वर्णन कीजिये।

भीष्मजीने कहा—बेटा ! अब मैं तुम्हें एक बड़ी मनोहर कथा सुना रहा हूँ। पूर्वकालमें इन भगवान् नारायण और महादेवजीका जो प्रभाव मैंने सुन रक्खा है, उसको तथा पार्वतीजीके संदेह करनेपर शिव और पार्वतीमें जो संवाद

हुआ था, उसको भी बतला रहा हूँ, मुनी—महलेश्वरों का हाथ है, धर्मात्मा भगवान् धीकृष्ण बारह वर्षोंमें तपस्या होनेवाले व्रतकी बीसा सेकर (एक पर्वतके ऊपर) बटोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका व्रत करनेके लिये नारद, परमेश, धीकृष्णपुत्रपावन व्यास, धौम्य, देवल, कारभ्य, हस्तिनायन तथा दूसरे-दूसरे बीसा और बमते सम्पूर्ण ऋषि-महर्षि अपने शिष्यों, सिद्धों तथा देवोंसम तपस्विनियोंके साथ बटों आये। देवकीनन्दन धीकृष्णने बड़ी प्रसन्नताके साथ देवोंसम उन-घारसि उन महर्षियोंका आतिथ्य-सत्कार किया। भगवान्के लिये हुए हरे और सुनहरे रंगवाले कुशोंके मनीष भागनोंपर विराजमान होकर वे बटों करनेवाले पार्वतियों और देवताओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक मधुर धानीमें धर्मविषयक चर्चा करने लगे। इतनेहीमें अद्भुत बर्ष करनेवाले भगवान् धीकृष्णके मुखसे उनको व्रत-धर्मसि प्रकट हुआ तब बाहर निकलकर

वृक्ष, लता, झाड़ी, पत्थी, मृगसमुदाय, शिकारी पशु और सर्पोंसहित उस पर्वतको वग्ध करने लगा। उस समय ज्ञाना प्रकारके जीव-जन्तुओंका हाहाकार चारों ओर फैल रहा था। थोड़ी ही देरमें उस पर्वतका शिखर जलकर साफ हो गया। वहाँ चित्तन जीवोंका नाम भी चाफ़ी न रहा। उराकी स्थिति बढ़ी दयनीय दिलायी देती थी। इस प्रकार ऊँची ज्वालाओंसे युक्त उस तेजःस्वरूप अग्निने पर्वतके समस्त शिखरको भस्म करके भगवान् श्रीकृष्णके पास आकर शिष्यकी भाँति उनके दोनों चरणोंमें प्रणाम किया। तब भगवान्ने उस पर्वतको जला हुआ देखकर उसके ऊपर अपनी शान्त वृष्टि डाली।



इससे यह पुनः अपनी पहली अवस्थामें आ गया। वहाँ पूर्वकी ही भाँति प्रफुल्लित लताओं और हरे-मरे वृक्षोंकी शोभा छा गयी। पक्षियोंका फलरव होने लगा तथा सभी जीव-जन्तु जीवित होकर विचरने लगे। यह अद्भुत और अचिन्त्य घटना देखकर मुनियोंको बड़ा विस्मय हुआ। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर आये।

ऋषियोंको इस प्रकार विस्मित होते देख नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णने विनय और स्नेहसे शरी हृद्दं मधुर वाणीमें पूछा—'महर्षियो! आपका समुदाय तो सदा आसक्ति और ममतासे रहित है, सबको शास्त्रोंका ज्ञान है, फिर भी आप-लोगोंको आश्चर्य क्यों हो रहा है?'

ऋषियोंने कहा—भगवन्! आप ही संसारको बनाते और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं। सर्वा, गर्माँ और चर्वा—ये आपहीके स्वरूप हैं। इस पृथ्वीपर जितने भी त्तराचर प्राणी हैं, उन सबके पिता, माता, ईश्वर और उत्पत्तिके कारण भी आप ही हैं। आपके मुँहसे अग्निका प्राक्-भवि देखकर हमलोगोंको महान् आश्चर्य हो रहा है; अतः आप उसका कारण बतानेकी कृपा करें। उसे सुनकर हमारा भय दूर हो जायगा।

श्रीकृष्णने कहा—मुनिवरों! मेरे मुँहसे प्रलयकालकी अग्निके समान जो तेज प्रकट होकर पर्वतको वग्ध कर रहा था, वह मेरा ही वैष्णव तेज था। मैं इस पर्वतपर अपने ही समान वीर्यवान् पुत्र पानेकी इच्छासे व्रत (तपस्या) करनेके लिये आया हूँ। मेरे शरीरमें स्थित प्राण ही अग्निरूपमें बाहर निकलकर सबको धर देनेवाले लोकपितामह ब्रह्माजीका वर्णन करनेके लिये उनके लोकमें गया था। ब्रह्माजीने उसे यह संदेश देकर भेजा है कि 'भगवान् शंकरका आधा तेज ही मेरे पुत्ररूपमें उत्पन्न होनेवाला है।' यह तेजोमय प्राण वहाँसे लीटनेपर मेरे पास आया है और निकट पहुँचनेपर शिष्यकी भाँति परिचर्या करनेके लिये उसने मेरे चरणोंमें प्रणाम किया है। इसके बाद शान्त होकर यह अपनी पूर्ववस्थाको प्राप्त हो गया है। यही मेरे मुँहसे इस अग्निके प्रकट होनेका रहस्य है, जिसको मैंने थोड़ेमें आपलोगोंको जता दिया है; अतः आप भयभीत न हों। आपलोग वीर्यवर्माँ हैं, आपकी गति कहीं नहीं रुकती, तपस्वियोंके योग्य प्रतका आचरण करनेसे आपका शरीर देवीप्यमान हो रहा है तथा ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं; इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपलोगोंने इस पृथ्वीपर या स्वर्गमें कोई महान् आश्चर्यकी व्रात देखी या सुनी हो तो उराको सुनते बतलाइये। आप तपोधनके निवासी हैं, अतः आपके अमृतके समान मधुर अन्न सुननेकी सुनके सदा इच्छा बनी रहती है। पर्याँकि सत्पुरुषोंका कहाँ और सुना हुआ अन्न विश्वासके योग्य होता है तथा यह पत्यस्पर सिँची हृद्दं लकीरकी भाँति इस पृथ्वीपर बहुत विनोत्सक फायम रहता है।

यह सुनकर भगवान्के समीप बैठे हुए सभी ऋषियोंको बड़ा विस्मय हुआ। ये कामलवल्के समान शिले हुए नेत्रोंसे उनकी ओर देखने लगे। कोई उनका अभ्युदय बनाने लगा, कोई प्रशंसा करने लगा और कोई ऋष्येवकी अर्थयुक्त ऋचाओंसे उनकी स्तुति करने लगा। तदनन्तर, सबने वातचीत करनेमें धतुर देवर्षि नारदकी, भगवान्की वातका उत्तर देनेके लिये प्रेरित किया। तब नारायणके सुद्दं

भगवान् नारद मुनिने महादेवजीका पार्वतीदेवीके साथ जो संवाह हुआ था, उसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

नारदजी बोले—भगवन् ! जहाँ सिद्ध और धारण विचरते रहते हैं, जो माना प्रकाशकी ओषधियों और पुष्पोंसे आच्छादित होनेके कारण अत्यन्त रमणीय दिखायी देता है तथा जहाँ मूंड-की-मूंड अम्पराएँ और भूतोंकी टोतियाँ निवास करती हैं; उस परम पावन हिमालय पर्वतपर परम धर्मिणा देवाधिदेव भगवान् शंकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय पार्वती देवीने उनके पास जाकर पूछा—‘भगवन् ! आप सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी और समस्त धर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपके सामने अपने मनका एक संदेह उपस्थित करना चाहती हूँ। यह मुनियोंका समुदाय भी यहाँ मौजूद है, जो तपस्यामें प्रवृत्त रहता और नाना प्रकारके वेध धारण करके संसारात् विचरता रहता है। आप इन ऋषियोंका और मेरा भी प्रिय करनेके लिये मेरे संदेहका निवारण करें। धर्मका क्या स्वरूप है ? जो धर्मको नहीं जानते ऐसे मनुष्य उसका किस प्रकार आचरण कर सकते हैं ?’

पार्वती देवीने जब यह प्रश्न उपस्थित किया तो समस्त ऋषियोंने श्रद्धेयदेवी अर्पणुक्त ऋचाओंसे स्तुति करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदनन्तर, भगवान् महेश्वरने कहा—‘वेवि ! किसी भी जीवकी हिंसा न करना, सब बोधना, सब प्राणियोंपर दया करना, मन और इन्द्रियोंपर काबू रखना तथा अपनी शक्तिके अनुसार दान देना—यह गृहस्थ-आधमका उत्तम धर्म है। उन्नत गृहस्थ-धर्मका पालन करना, परायी स्त्रीके संसांगसे ब्रू रहना, धरोहर और स्त्रीको रक्षा करना, बिना विधे किसीकी वस्तु न लेना तथा मात और मदिराको त्याग देना—ये धर्मके पाँच भेद हैं, जिनसे मुक्तकी प्राप्ति होती है। इनमेंसे एक-एक धर्मको अनेकों शाखाएँ हैं। धर्मको श्रेष्ठ माननेवाले मनुष्योंको इन धर्मोंका अवश्य पालन करना चाहिये !’

पार्वतीने पूछा—भगवन् ! चारों वर्णोंका जो-जो धर्म अपने-अपने वर्णके लिये विशेष सामकार्यी हो, वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रके धर्मका पृथक्-पृथक् स्वरूप क्या है ?

महेश्वरने कहा—‘वेवि ! तुमने ग्यामके अनुसार प्रश्न करके सब कुछ पूछ डाला। अच्छा, अब अपने प्रश्नोंका उत्तर सुनो—संसारमें ब्राह्मण इस पृथ्वीके देवता माने गये हैं। उपवास करना उनका परम धर्म है। धर्मोपसम्पन्न ब्राह्मण ब्रह्माचारके प्राप्त होता है। उसे धर्मका अनुष्ठान और विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये। व्रतके पालन-पूर्वक उपनयन-सांस्कारका होना उसके लिये परम आवश्यक

है; क्योंकि इसीसे वह द्विज होता है। गुरु और देवताओंकी पूजा, स्वाध्याय और अम्पातकष धर्मका पालन ब्राह्मणकी अवश्य करना चाहिये। धर्मका स्वरूप मुनता, वैशेष्य व्रतका पालन, होम और गुरुदेवा करना, मित्तमगे जीवन-निर्वाह करना, सदा यतोपवीत धारण किये रहना, प्रतिदिन वेदका स्वाध्याय करना और ब्रह्मचर्य-आधमके नियमोंका पालन करना ब्राह्मणका प्रधान धर्म है। ब्रह्मचर्यकी अवधि समाप्त होनेपर द्विज अपने गुरुकी आत्मा लेकर समाधान करने और घर आकर अपने अनुरूप स्त्रीके विधिपूर्वक विवाह करे। ब्राह्मणकी शूद्रका अन्न नहीं खाना चाहिये। सदाचार-का पालन उसका परम धर्म है। उपवास, ब्रह्मचर्य-पालन, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, हवन, इन्द्रियसंयम, अतिथि और मृत्योंको भोजन करनेके बाद अन्न-ग्रहण, आहार-संयम, सत्यमायण, पवित्र रहना, अतिथि-सत्कार करना, गार्हपत्य आदि विविध अग्निमेंकी परिधर्मा करना, घन करना, किसी भी जीवकी हिंसा न करना और धर्ममें पहले भोजन न करने कुटुम्बके लोगोंको भोजन करानेके बाद ही भोजन करना—यह गृहस्थ ब्राह्मणका विशेषतः धीरिष्यका परम धर्म है। पति और पत्नीका स्वभाव एक-सा होना चाहिये सभी गृहस्थ-धर्मका टोक-डीक पालन होता है। परके देवताओंकी प्रतिबिम्ब पुष्प आदिसे पूजा करना, उन्हें अन्नकी अति अर्पण करना, रोज-रोज घर सीपना और प्रतिदिन व्रत रखना भी गृहस्थका धर्म है। मातृ-शुद्धार, शीघ्र-योनिकर साक किये हुए धर्ममें पृतपुत्र आहूति करके उसका धर्म संताना चाहिये। यह ब्राह्मणोंका गार्हस्थ्य-धर्म बतनाया गया, जो संतारकी रक्षा करनेवाला है। अच्छे ब्राह्मण सारा ही इस धर्मका पालन करते हैं।

अब मैं क्षत्रियका धर्म बतला रहा हूँ। क्षत्रियका सबसे पहला धर्म है प्रजाका पालन करना। प्रजाकी आपत्ते उसे भागका उपमोष करनेवाला राजा धर्मका कल पाता है। जो धर्मपूर्वक अपनी प्रजाकी रक्षा करता है, उस राजाको उसके प्रजापालनकपी धर्मके प्रभावसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। राजाका परम धर्म है—रिन्द्रियसंयम, स्वाध्याय, अग्निहोत्र, दान, अष्टयजन, यतोपवीत-धारण, यज्ञानुष्ठान, धार्मिक कार्य करना, पोष्यवर्गका धरण-शोचन करना, आरम्भ किये हुए कर्मकी सफल बनाना, अरदायके अनुगार उचित दण्ड देना, वैशेष्य वर्णोंका अनुष्ठान करना, स्वब्रह्ममें ग्यायकी रक्षा करना और सत्यमायणमें प्रेम रखना। जो राजा सुधी मनुष्योंकी हायका सहारा देता है, वह इन लोक और परलोक-में भी सम्मानित होता है। जो गौ और ब्राह्मणोंके रक्षाने लिये सांघाममें पराक्रम रित्ताकर प्राप्त त्याग करता है, वह

परलोकमें अरबबोधयज्ञमें प्राप्त होनेवाले उत्तम लोकोंपर अधिकार प्राप्त करता है।

पशुओंका पालन, खेती, व्यापार, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, सदाचारका पालन, अतिथि-सत्कार, राम, दम, ब्राह्मणोंका स्वागत और त्याग—यह धर्मोंका सनातन धर्म है। व्यापार करनेवाले सदाचारी वैश्यको तिल, चन्दन और रसको विक्री नहीं करनी चाहिये तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन सबका यथायोग्य आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये।

शूद्रका परम धर्म है तीनों वर्णोंकी सेवा। जो शूद्र सत्यवादी, जितेन्द्रिय और घरपर आये हुए अतिथिकी सेवा करनेवाला है, वह महान् तपका संग्रह करता है। उसे उत्तम तपस्वी समझना चाहिये। नित्य सदाचारका पालन और देयता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाले बुद्धिमान् शूद्रको धर्मका मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है। कल्याणी! इस प्रकार मैंने तुम्हें एक-एक करके चारों वर्णोंका धर्म बतलाया, अब और क्या सुनना चाहती हो।

पायेंतीने कहा—भगवन! आपने चारों वर्णोंके हितकारी धर्मका पृथक्-पृथक् वर्णन किया, अब वह धर्म बतलाइये जो सब वर्णोंके लिये समान रूपसे उपयोगी हो।

महेश्वरने कहा—देवि! गुणों पर दृष्टि रखनेवाले और जगत्के सारभूत ब्रह्माजीने सम्पूर्ण लोकोंको तारनेके लिये ब्राह्मणोंकी सृष्टिकी है। ब्राह्मण इस भूमण्डलके देवता हैं, यतः पहले उन्हेंकि कुछ और धर्मोंका वर्णन करता हूँ। (किर सबके लिये उपयोगी धर्मोंका उपदेश करूँगा।) ब्रह्माजीने सम्पूर्ण जगत्की रक्षाके लिये वैदिक, स्मार्त और गिष्टाचार—इन तीन प्रकारके धर्मोंका विधान किया है। धर्मके ये तीनों ही भेद सनातन हैं। जो तीनों धर्मोंका ज्ञान और विद्वान् हो, पढ़ने-पढ़ानेका काम करके जीविका न चलाता हो, दान, अध्ययन और यज्ञ—इन तीन धर्मोंका सदा अनुष्ठान करता हो, काम, श्रेय और लोभ—इन तीनोंको त्याग चुका हो तथा सब प्राणियोंपर दया रखता हो, वही वास्तवमें ब्राह्मण माना गया है। सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी ब्रह्माजीने ब्राह्मणोंकी जीविकाके लिये यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान खेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना—ये छः कर्म बतलाये हैं। ये ब्राह्मणोंके सनातन धर्म हैं। इनमें भी सदा स्वाध्यायशील होना, यज्ञ करना और अपनी शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक दान देना—ये तीन कर्म ब्राह्मणोंके लिये अत्यन्त उत्तम माने गये हैं।

सब प्रकारके विषयोंमें उपराम होना राम कहलाता है, यह सन्तुष्टियोंमें सदा दृष्टिगोचर होता है। इसका पालन

करनेसे गृह चित्तवाले गृहस्थोंको महान् धर्मकी प्राप्ति होती है। गृहस्थ पुरुषको पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करके अपने मनको शुद्ध बनाना चाहिये। जो गृहस्थ सदा सत्य बोलता, किसीके दोष नहीं देखता, दान देता, ब्राह्मणोंका सत्कार करता, अपने घरको साढ़-बुहारकर साफ रखता, अभिमानका त्याग करता, सदा सरल भावसे रहता, स्नेहयुक्त वचन बोलता, अतिथि और अम्त्यागतोंकी सेवामें मन लगाता, यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करता और अतिथिको शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार पाद्य, अर्घ्य, आसन, शय्या, दीपक तथा ठहरनेके लिये गृह प्रदान करता है, उसे धार्मिक समझना चाहिये। जो प्रातःकाल उठकर सूर्य-हाथ धोनेके पश्चात् ब्राह्मणकी भोजनके लिये निमन्त्रण देता और उसे ठीक समयपर सत्कार-पूर्वक भोजन करानेके बाद कुछ दूरतक उसके पीछे-पीछे जाता है, उसके द्वारा सनातन धर्मका पालन होता है। शूद्र गृहस्थको अपनी शक्तिके अनुसार सदा सबका आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्णोंकी परिचर्यामें रहना उसके लिये प्रधान धर्म बतलाया गया है। प्रवृत्तिरूप धर्मका विधान गृहस्थोंके लिये किया गया है, वह सब प्राणियोंका हितकारी और उत्तम है। अब मैं उसीका वर्णन करता हूँ। अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको सदा अपनी शक्तिके अनुसार दान, यज्ञ तथा पुष्टिजनक कार्य करते रहना चाहिये। धर्ममार्गका आश्रय लेकर धनका उपार्जन करना चाहिये और उसका तीन विभाग करके एक अंशसे धर्म और अर्थकी सिद्धि करनी चाहिये, दूसरे अंशको उपभोगमें लगाना चाहिये और तीसरे अंशको बढ़ाना चाहिये। (यह प्रवृत्ति धर्मका वर्णन किया गया है।)

इससे निम्न निवृत्तिलय धर्म है। वह मोक्षका साधन है। अब मैं उसका यथार्थ स्वरूप बतला रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो—मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोंको सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करनी चाहिये। हमेशा एक ही गाँवमें नहीं रहना चाहिये और अपने आशास्त्री ब्रह्मणोंको तोड़नेका यत्न करना चाहिये। मुमुक्षुके लिये यही प्रशंसाकी बात है। उसे कमण्डलु, जल, कौपीन, आसन, त्रिदण्ड, शय्या, अग्नि और घरपर समता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। मुमुक्षुको अल्पात्मज्ञानका ही चिन्तन और मनन करना चाहिये तथा सदा उसीमें स्थित रहना चाहिये। निरन्तर योगाभ्यासमें प्रवृत्त होकर तत्त्वका विचार करते रहना चाहिये। संन्यासी ब्राह्मणको उचित है कि वह सब प्रकारकी आसक्तियों और स्नेहव्ययनोंसे मुक्त होकर सर्वदा वृक्षके नीचे, मृने गृहमें अथवा नदीके किनारे रहता हुआ अपने अन्तःकरणमें परमात्माका ध्यान करे। जो युक्तचित्त होकर

संन्यास ग्रहण करता है और भोसोपयोगी कर्म—अभय, मनन, निदिध्यासन आदिके द्वारा समय व्यतीत करता हुआ ठूठे काठकी भाँति स्थिर रहता है, उसको सनातन धर्मका मोक्षदत्त फल प्राप्त होता है। संन्यासी पुरुष किसी एक स्थानपर आसक्ति न रखे, एक ही गर्वमें न रहे तथा एक ही नदीके किनारेपर सर्वदा शयन न करे। उसे सब प्रकारकी आसक्तिप्राप्ति मुक्त होकर स्वच्छन्द विचरना चाहिये। यह मोक्ष-धर्मके शाखा सत्युपयोगी धर्म और वेद-प्रतिपादित सम्मार्ग है। जो इस मार्गसे चलता है, उसके लिये कोई सीमित स्थान नहीं रहता (यह मुक्त एवं सर्वव्यापक हो जाता है)। संन्यासी चार प्रकारके होते हैं—शुटीवक, बहूवक, हंस और परमहंस। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। इस परमहंस-धर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले आत्मज्ञानसे बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। यह बुद्ध-मुक्ते रहित, सोम्य, अजर, अमर और अविनाशी पद है।

पार्यंतीजीने कहा—भगवन् ! आपने सत्युपयोगी द्वारा आचरणमें लाये हुए गार्हस्थ्य-धर्म और मोक्ष-धर्मका वर्णन किया। ये दोनों ही मार्ग जीव-जगत्का महान् कल्याण करनेवाले हैं। इन्हें सुन लेनेके बाद अब मैं ऋषियोंका धर्म सुनना चाहती हूँ। महेश्वर ! तपोवननिवासी मुनियोंके प्रति मेरे मनमें बड़ा स्नेह है। ये जब अग्निमें पूतमिधित हविष्यको आहुति डालते हैं, उस समय उसके धूमसे प्रकट हुईं सुगन्धसे सारा तपोवन भर जाता है। उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न रहता है, इसलिये मैंने मुनियोंके धर्मके सम्बन्धमें जिज्ञासा प्रकट की है। देवदेव ! आप सम्पूर्ण धर्मोंका तत्त्व जाननेवाले हैं; अतः मैंने जो कुछ पूछा है उसका पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये।

भगवान् महेश्वरने कहा—कल्याणी ! सुगन्धारा प्रसन्न मुनिके बड़ी प्रसन्नता हुई है। श्व में मुनियोंके उत्तम धर्मका वर्णन करता हूँ, जिसका आश्रय लेकर वे अपनी तपस्याके द्वारा परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं। सबसे पहले धर्मके जाननेवाले फेनप' ऋषियोंका धर्म सुनो—पूर्वकालमें ब्रह्माजीने यज्ञ करते समय जिसका पान किया था तथा जो स्वयंमें फैला हुआ है, वह अमृत (ब्रह्माजीके पीनेके कारण) बाह्य बहलता है। उसके फेनको थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके जो सदा पान करते हैं (और उसीके आधारपर जीवन-निर्वाह करते हुए तपस्यामें सगे रहते हैं), वे फेनप बहलता हैं। यह धर्माचरणका मार्ग उन विगूढ फेनप महात्माओंका ही मार्ग है। अब बालासिन्धु महर्षियोंके धर्मका ध्वज करो। बाल-

सिन्धुपण तपोवत् महात्मा हैं। वे सब धर्मोंके शाखा हैं और सुमंमन्त्रमें निवास करते हैं। तथा उच्छ्वसितका आश्रय लेकर पशुओंकी भाँति एक-एक शाना बोनकर उत्तरे ओषध-निर्वाह करते हैं। मृगछाता, घोर और वन्य—ये ही उनके वस्त्र हैं। वे शीत-उष्ण आदि इन्द्रियों रहित, सदाचारका पालन करनेवाले और तपस्याके धनी हैं। उनमेंमें श्वेतरका शरीर अँगुठेके सिरके बराबर है। वे अपने-अपने बन्धुमें स्थित हो सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं। उनके धर्मका महान् फल है। वे तपस्यासे सम्पूर्ण पापोंको दाय करके अपने तेज से सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हैं और देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उनके समान रूप धारण करते हैं। इनके अतिरिक्त और बहुत-से शुद्धचित्त द्वा-धर्मपरायण एवं पुण्यात्मा महर्षि हैं। जिनमें कुछ शक्यर (शक्यके समान विचरनेवाले), कुछ सोमसोकमें रहनेवाले तथा कुछ पितृ-सोकके निकट निवास करनेवाले हैं। ये सब शास्त्रीय विधिसे अनुसार उच्छ्वसितसे जोषिका घसते हैं। कोई ऋषि सप्रदाय', कोई अरमशुटी' और कोई दन्तोत्पत्तिक' हैं। ये सोम सोमप (चन्द्रमाके किरणोंका पान करनेवाले) और उष्णप (सूर्यके किरणोंका पान करनेवाले) देवताओंके निकट रहकर अपनी स्वयंसेवित उच्छ्वसितसे ओषध-निर्वाह करते और इन्द्रियोंको काबुमें रखते हैं। मन्त्रिण, पितरोंका धाड़ और पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान—यह उनका मुख्य धर्म है। चक्री तरह विघटनेवाले और देवलोकेमें निवास करनेवाले पूर्वोक्त ब्राह्मणोंने इस ऋषि-धर्मका सदा ही अनुष्ठान किया है। इसके अतिरिक्त भी जो ऋषियोंका धर्म है, उसे सुनो। मेरे विद्यार्थी सभी आर्य धर्मोंमें इन्द्रियसंयमपूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। फिर काम और मोक्षको भी जीतना चाहिये। प्रत्येक ऋषिके अग्निसे पूतका होम, धर्म-शास्त्र अनुष्ठान, सोम-यज्ञद्वारा यज्ञ, यज्ञ-विधिका ज्ञान और यज्ञमें इक्षिणा देना—ये पाँच कर्म अवश्य करने चाहिये। नित्य यज्ञका अनुष्ठान और धर्मका पालन करना चाहिये तथा देवपूजा और ध्यात्ममें अनुराग रखना चाहिये। उच्छ्वसितसे उपासित किये हुए अन्नके द्वारा सबका आनन्द-सन्कार करना ऋषियोंका परम कर्तव्य है। वे विषयभोगोंसे निवृत्त रहे, गोरमका

२ जो मोक्षके पदचान् पावको थो-शोचर रख देते हैं, दूसरे दिनके लिये कुछ भी नहीं बचाते, उन्हें गन्धमान कहते हैं। ३. पापको थोड़कर धानेवाले। ४. जो दानोंमें ही ओषधीका काम लेते हैं अर्थात् अन्नको ओषधीमें न बदलकर दानोंमें ही नकार धाने हैं वे दन्तोत्पत्तिक कहलते हैं।

आहार करें, शमके साधनमें प्रेम रखें, खुले मैदान चबूतरे-पर सोवें, योगका अभ्यास करें, साग-पात, फल-मूल, वायु-जल और सेवारका आहार करके रहें—ये ऋषियोंके नियम हैं। इनका पालन करनेसे वे अजित (सर्वश्रेष्ठ) गतिको प्राप्त करते हैं। जब गृहस्थोंके घरमें रसोई-घरका धुआँ निकलना बंद हो जाय, मूसलसे धान कूटनेकी आवाज न आये—समादा रहे, चूल्हेकी आग बुरू जाय, घरके सब लोग भोजन

कर चुकें, बर्तनोंका इधर-उधर ले जाना रुक जाय और भिक्षुक भीख लेकर लौट गये हों ऐसे समयतक ऋषिको अतिथिकी वाट जोहनी चाहिये और उसके भोजनसे बचे-खुचे अन्नको स्वयं ग्रहण करना चाहिये। जो गर्व और अभिमान नहीं करता, अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता, शत्रु और मित्रको समान समझता तथा सबके प्रति मैत्रीका भाव रखता है, वही धर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ऋषि है।

वानप्रस्थ-धर्मका वर्णन

पार्वतीने कहा—भगवन् ! व्रतका पालन करनेवाले वानप्रस्थी महात्मा नदियोंके तटवर्ती रमणीय स्थानोंमें, ऋतनोंके आस-पासके कुञ्जोंमें, पर्वतोंपर, वनोंमें और फल-मूलसे सम्पन्न पवित्र स्थानोंमें निवास करते हैं। वे अपने शरीरको ही कण्ट पहुँचाकर जीवन-निर्वाह करते हैं, अतः मैं उनके पालन करने योग्य पवित्र स्थानोंको श्रवण करना चाहती हूँ।

महेश्वरने कहा—देवि ! तुम सावधान होकर वान-प्रस्थी महात्माओंके धर्म चुनो। उन्हें दिनमें तीन बार स्नान, देवताओं और पितरोंका पूजन, अग्निहोत्र और विधिवत् यज्ञ करने चाहिये। वानप्रस्थीको जीविकाके लिये नीवार और फल-मूलका सेवन तथा दीप आदि जलानेके लिये इङ्गुची और रेंडिके तेलका उपयोग करना उचित है। वे योगका अभ्यास और फाम-श्लोषका त्याग करें, बीरासनसे बैठें और वीरस्थान (जहाँ भीरु मनुष्योंको रहनेकी हिम्मत न पड़े ऐसे घने जंगल) में निवास करें। धर्ममें बुद्धि रखनेवाले वनवासी भुनियोंको वेदीपर सोना, सर्दिके मौसममें जलके भीतर अधिक कालतक बैठना, वर्षाकालमें खुले मैदानमें सोना और ग्रीष्म-ऋतुमें पञ्चाग्निका सेवन करना चाहिये। वे वायु अथवा जल पीकर रहें, सेवारका भोजन करें, पत्थरसे अन्न या फलको कूचकर खायें अथवा दाँतसे चबाकर ही भक्षण करें। सम्प्रक्षालके नियमसे रहें अर्थात् दूसरे दिनके लिये आहार संग्रह करके न रखें। चीर, बल्कल और भृगुछाला—ये ही उनके वस्त्र होने चाहिये। उन्हें समयके अनुसार धर्मके उद्देश्यसे विधिपूर्वक तीर्थ आदि स्थानोंमें यात्रा करनी चाहिये। वानप्रस्थीको सदा वनमें ही रहना, वनमें ही विचरना, वनमें ही ठहरना, वनके ही मार्गपर चलना और वनमें ही जीवन-निर्वाह करना चाहिये। होम, पञ्चयज्ञका सेवन, पञ्चयज्ञसे बचे हुए अन्नका आहार, वेदोक्त कर्मोंका अनुष्ठान, अष्टका ध्याय, चातुर्मास्य यज्ञ, दर्श, पौर्णमास आदि

याग और-नित्य यज्ञका अनुष्ठान करना उनका धर्म है। वानप्रस्थी मुनि स्त्री-समागम, सब प्रकारके संकट तथा सम्पूर्ण पापोंसे दूर रहकर वनमें विचरते रहते हैं। खुवा ही उनका पात्र है। वे सदा आहवनीयादि त्रिविध अग्नियोंकी परिचर्यामें ही लगे रहते हैं और नित्य सन्मार्गपर चलते हैं। इस प्रकार मुनिवृत्तिसे रहनेवाले वे वानप्रस्थी संत परम गतिको प्राप्त होते हैं। वे सत्य-धर्मका आश्रय लेनेवाले और सिद्ध होते हैं, अतः महान् पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोकमें गमन करते हैं।

देवि ! वानप्रस्थका नियम पालन करनेवाले इन तपस्वियोंमें कुछ तो तपस्यामें संलग्न रहकर सदा स्वच्छन्द विचरनेवाले होते हैं और कुछ अपनी-अपनी स्त्रीके साथ रहते हैं। स्वच्छन्द विचरनेवाले मुनि सिर मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहनते हैं। उनका कोई एक स्थान नहीं होता; किंतु जो स्त्रीके साथ रहते हैं, वे रात्रिको अपने आश्रममें ही ठहरते हैं। दोनों ही प्रकारके ऋषि तीनों समय जलमें स्नान करते, प्रतिदिन अग्निमें आहुति डालते, ऋषियोंके बताये हुए महान् धर्मका पालन करते, समाधि लगाते, सन्मार्ग पर चलते और शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं। पहले जो वनवासियोंके धर्म बता आये हैं, उन सबका यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्याका पूर्ण फल मिलता है। जो मुनि स्त्रीको साथ लिये रहते हैं, वे उसके साथ ही इन्द्रिय-संयमपूर्वक वेदविहित धर्मका आचरण करते हैं। उन धर्मात्माओंको ऋषियोंके बताये हुए धर्मके पालन करनेका फल मिलता है। धर्मपर दृष्टि रखनेवाले भुनिको फामनावश किसी भोगका सेवन नहीं करना चाहिये। जो हिंसादोषसे मुक्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय दान कर देता है, उसीको धर्मका फल प्राप्त होता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करता, सबके साथ सरलताका बर्ताव रखता और समस्त प्राणियोंको आत्मभावसे देखता है, वही धर्मका फल पाता है। चारों वेदोंमें निष्णात

होना और सब जीवोंके प्रति सरलताका बर्ताव करना—ये दोनों एक समान समझे जाते हैं; बल्कि सरलताका बर्ताव ही विशेष फल देनेवाला है। सरलता धर्म है और बुद्धितता अधर्म। सरलभावसे युक्त मनुष्यको ही धर्मका वास्तविक फल मिलता है। जो सरल बर्तावसे प्रेम रखता है, वह वैयताओंके समीप निवास करता है; इसलिये जो अपने धर्मका

फल पाना चाहता हो, उसे सरलतायुक्त बनानेसे युक्त होना चाहिये। क्षमाशील, जितेन्द्रिय, क्रोधरहित और धर्ममें मन लगानेवाले, धार्मिकभावसे युक्त, हिसारहित और धर्ममें मन लगानेवाले मनुष्यको ही धर्मका वास्तविक फल प्राप्त होता है। जो पुण्य आत्मस्वरहित, धर्मरहित, सम्प्राप्त्यागो, सच्चरित्र और भ्रान्ति होता है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।

ऊँच और नीच वर्णकी प्राप्ति करानेवाले तथा बन्धन, मुक्ति एवं स्वर्ग देनेवाले शुभाशुभ कर्मोंका वर्णन

पार्वतीने पूछा—भगवन् ! मेरे मनमें एक संशय है, ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जिन चार वर्णोंकी सृष्टिकी है, उनमेंसे वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कंसा कर्म करनेके कारण शूद्र-योनिको प्राप्त हो जाते हैं तथा शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय किस प्रकार ब्राह्मणत्वको प्राप्त होते हैं? आप मेरी इस शङ्काका समाधान करें।

महेश्वरने कहा—देवि ! ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये चारों वर्ण मेरे विचारसे प्राकृतिक (स्वभावसिद्ध) हैं। इतना अवश्य है कि द्विज पापकर्म करनेसे अपने स्थानसे—अपनी महत्तासे नीचे गिर जाता है, अतः द्विजको उत्तम वर्णमें जन्म पाकर अपने पदकी रक्षा करनी चाहिये। यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण-धर्मका पालन करते हुए ब्राह्मणत्वका सहारा लेता है तो वह ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण स्वधर्मका त्याग करके क्षत्रिय-धर्मका सेवन करता है, वह ब्राह्मणत्वसे छूट होकर क्षत्रिय-योनिमें जन्म लेता है। इसी प्रकार जो कुलुम्ब ब्राह्मणत्वको पाकर अपनी मन्दबुद्धिताके कारण लोभ-भोहका आश्रय ले सदा वैश्योंके कर्म करता है, वह वैश्य-योनिमें जन्म लेता है अथवा यदि वैश्य शूद्रके कर्म अपनाता है तो वह भी शूद्रत्वको प्राप्त होता है। ब्राह्मण-जातिका पुण्य यदि शूद्रके कर्म अपनाता है तो जोतेजो ब्राह्मणत्वसे छूट जाता है और मृत्युके पश्चात् वह ब्रह्मलोककी प्राप्तिसे वञ्चित होकर मरकर्ममें यज्ञता है। उसके बाद वह शूद्रकी योनिमें जन्म ग्रहण करता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कोई भी अपने कर्मकी छोड़कर शूद्रका काम करने लगे तो वह अपनी जातिसे छूट होकर वर्णसंस्कार हो जाता है और दूसरे जन्ममें शूद्रकी योनिमें जन्म लेता है। जो पुण्य अपने वर्ण-धर्मका पालन करते हुए बोध प्राप्त करता है और भान-वितानसे सम्पन्न, पवित्र तथा धर्मज्ञ होकर धर्ममें ही लगा रहता है,

वही धर्मके वास्तविक फलका उपभोग करता है। देवि ! ब्रह्माजीने एक बात और बतायी है, धर्मको इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषोंकी अभ्यासप्रदानका सम्पादन करना चाहिये। उप स्वभावके मनुष्यका अन्न निश्चित माना गया है। जिसी समुदायका, धादक, जनतासौचका, बुद्ध पुरुषका और शूद्रका अन्न भी निर्दिष्ट है, उसे कभी नहीं खाना चाहिये—यह पितामहके धीमुपका वचन है; अतः इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिये। यदि वेदमें शूद्रका अन्न पड़ा हो और उसी अवस्थामें मृत्यु हो जाय तो वह ब्राह्मण अग्निहोत्री अथवा पितृ करनेवाला हो क्यों न रहा हो, उसे शूद्रकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है। जो उत्तम और कुलुम्ब ब्राह्मणत्वको पाकर उत्तरी अवहेलना करता है और नहीं खाने योग्य अन्न खाता है, वह निश्चय ही ब्राह्मणत्वसे छूट हो जाता है। गरीबी, ब्रह्म-हत्या, धार कर्म करनेवाला, धोर, व्रतभंग करनेवाला, स्वाध्यायहीन, पापी, लोभी, कपटी, शठ, व्रतका पालन न करनेवाला, शूद्र-जातिकी स्त्रीका स्वामी, कुम्हारकी (जिस वर्तनेमें भोजन बनावे उसीमें खानेवाला), लोभ-रस बंधनेवाला और मोघ जातिके मनुष्यकी सेवा करनेवाला ब्राह्मण अपनी जातिसे छूट हो जाता है। जो गुदकी सम्प्राप्त पर रखता, गुदने झोह करता और गुदकी निन्दामें ही लगा रहता है, वह ब्रह्मवेत्ता होनेपर भी ब्राह्मणत्वसे गिर जाता है। इसी प्रकार शुभ कर्मोंके आचरणसे शूद्र भी ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता है। साक्षात् ब्रह्माजीका वचन है कि शूद्र भी यदि जितेन्द्रिय होकर पवित्र कर्मोंके अनुष्ठानसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध बना लेता है, तो वह द्विजकी ही धर्माति लेख्य होता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्रके स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हों तो वह द्विजातिमें भी ब्रह्मरूप मानने योग्य है। वैश्य योनि, संस्कार, शास्त्रज्ञान और संतति—ये ही ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति-के कारण नहीं हैं; ब्राह्मणत्वका प्रधान हेतु जो तत्त्वाचार ही

है। सदाचारमें स्थित रहनेवाला गूढ़ भी ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मका स्वरूप सर्वत्र समान है। जिसके भीतर उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्मका ज्ञान है, वही वास्तवमें ब्राह्मण है। ये जो चारों बर्णोंके स्थान और विभाग दिखलाये गये हैं, इन सबको अपनी उत्पत्तिके अनुसार ही जानना चाहिये। यह बात प्रजाओंके सृष्टि करते समय बरदाता ब्रह्माने स्वयं ही कही है। अपना कल्याण चाहनेवाले ब्राह्मणको उचित है कि वह सज्जनोंके मार्गका अवलम्बन करके सदा अतिथि और पोष्यबर्णको भोजन करानेके बाद अन्न ग्रहण करे। वैदिकत पयका आश्रय लेकर उत्तम व्रतादि करे। गृहस्थ ब्राह्मण धर्ममें रहकर प्रतिदिन संहिताका पाठ और शास्त्रोंका स्वाध्याय करे। अश्वयुजको जीविकाका साधन न बनावे। जो ब्राह्मण सन्मार्गपर स्थित हो अग्निहोत्र और स्वाध्यायपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। देवि! गूढ़ धर्माचरण करनेसे जिस प्रकार ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता है तथा ब्राह्मण स्वधर्मके त्यागसे नातिशय होकर जिस प्रकार गूढ़ हो जाता है—यह गूढ़ रहस्यकी बात मैंने तुम्हें बतला दी।

पार्वतीने पूछा—मगवन्! अब मुझे मनुष्योंके धर्म और अधर्मका विषय बतलाइये। मनुष्य कसे कर्मसे बँधते, मुक्त होते अथवा स्वर्गमें जाते हैं?

महेश्वरने कहा—देवि! तुम धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाली तथा निरन्तर धर्ममें संलग्न रहनेवाली हो; इसीलिये तुमने यह सब प्राणियोंके लिये हितकारी और बृद्धिको बढ़ानेवाला प्रश्न किया है। अच्छा, अब इसका उत्तर मुझे—जो मनुष्य धर्मसे उपार्जित किये हुए धनको भोगते और सत्यधर्ममें परायण रहते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं। जिनके सब प्रकारके सबहु दूर हो गये हैं, जो प्रलय और उत्पत्तिके तत्त्वको जाननेवाले, सबके और सर्वदृष्टा हैं, जिनकी आसक्ति दूर हो गयी है तथा जो मन, वाणी और कर्मसे किसी जीवकी हिंसा नहीं करते, वे ही पुरुष कर्म-व्यग्रनसे मुक्त होते हैं। उन्हें न धर्म बाँधता है न अधर्म। जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसीके प्राणोंकी हत्यासे दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयालु हैं, वे भी कर्मोंके बन्धनमें नहीं पड़ते। जो गन्ध और मित्रको समान समझनेवाले हैं, वे जित्नेन्द्रिय पुरुष कर्म-व्यग्रनसे मुक्त हो जाते हैं। जो सब प्राणियोंपर दया करनेवाले, सबके शिवाचारात्र तथा हिंस्रानय आवरणोंको त्याग देनेवाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो दूसरोंके धनपर मनना नहीं रखते, परायण स्त्रीसे सदा दूर रहते और धनके द्वारा प्राप्त किये हुए अन्नको ही भोजन करते हैं, जिनका दूसरोंकी स्त्रियोंके प्रति भावा, बहिर्न और बेदीके समान भाव

रहता है; जो सदा अपने ही धनसे संतुष्ट रहकर चोरी-चमारोंसे अलग रहते हैं, जिन्हें सदा अपने भाग्यका ही भरोसा रहता है, जो अपनी ही स्त्रीसे संतुष्ट रहते, ऋतुकालमें ही स्त्री-समागम करते और ग्रामीण सुख-भोगोंमें लिप्त नहीं होते हैं; जो अपनी सच्चरित्रताके कारण परस्त्रियोंकी ओर आँख उठाकर देखतेतक नहीं, जिनकी इन्द्रियाँ काबूमें रहती हैं तथा जो शीलको ही श्रेष्ठ समझकर उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। यह देवताओंका बनाया हुआ मार्ग है। राग और द्वेषको दूर करनेके लिये इस मार्गकी प्रवृत्ति हुई है। विद्वान् पुरुषोंको सदा ही इसका सेवन करना चाहिये। यह मार्ग दान, धर्म और तपस्यासे युक्त है। शील, शौच और दया इसका स्वरूप है। मनुष्यको जीविका, धर्म एवं आत्मोद्धारके लिये सदा ही इस मार्गका आश्रय लेना चाहिये (क्योंकि निष्कामभावसे सेवन किया हुआ धर्म परम कल्याणदायक होता है)।

पार्वतीने पूछा—भूतनाय! कौसी वाणी बोलनेसे मनुष्य बन्धनसे छुटकारा पाता है? यह बतानेकी कृपा कीजिये।

महेश्वरने कहा—जो मनुष्य अपने या दूसरेके लिये हँसो-परिहासमें भी मूढ़ नहीं बोलते, आजीविका, धर्म अथवा किसी कामनाके लिये असत्यभाषण नहीं करते, जिनकी वाणी मनको प्रिय लगनेवाली, किसीको दुःख न पहुँचानेवाली, पापपूर्ण विचारोंसे रहित तथा स्वागत-मत्कारके भावसे युक्त रहती है तथा जो कभी स्वकी, कड़वी और निष्ठुरतापूर्ण बात मुँहसे नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष स्वर्गमें जाते हैं। जो मनुष्य दूसरोंसे तीक्ष्ण बात बोलना और द्रोह करना छोड़ देते हैं, सब प्राणियोंको समान भावसे देखते और इन्द्रियोंको बर्णमें रखते हैं, जिनके मुँहसे कभी शय्यतापूर्ण बात नहीं निकलती, जो विरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते हैं तथा औघमें आनेपर भी जिनके मुँहसे हृदयकी विद्वान् करनेवाली बात नहीं निकलती—जो उस समय भी सान्त्वनापूर्ण वचन ही बोलते हैं, वे स्वर्गको प्राप्त होते हैं। देवि! यह वाणीका धर्म बतलाया गया है। मनुष्योंको सदा इसका सेवन करना चाहिये। विद्वानोंको प्रवृत्ता गुण और सत्य वचन बोलना तथा निष्पत्ताका त्याग करना उचित है।*

पार्वतीने पूछा—मगवन्! मनुष्य कौन-सा कर्म करनेसे दीर्घायु होता है? और किस कर्मसे उसकी आयु क्षीण हो जाती है? संसारमें कितने ही मनुष्य कुलीन होते

* उन्मुक्त कर्मोंका निष्कामभावसे आचरण करनेवाले पुरुषको परमात्मनसकी प्राप्ति ही जाती है।

हैं और कितने ही अकुलीन, कितने ही परिश्रम जान पड़ते हैं और कितने ही बुद्धि। इसी प्रकार बहुतेरे शान-विभावाने सम्पन्न एवं महान् बुद्धिमान् बने जाते हैं। कितने ही लोगोंपर छोटी-मोटी बाधाएँ आती हैं और कितने ही बड़ी-बड़ी आपत्तियोंके शिकार हुए रहते हैं, इसका क्या कारण है? यह सब बतानेकी छ्पा कीजिये।

महेश्वरने कहा—देवि! कर्मोंका फल जिस प्रकार ब्रह्म होता है और अर्थलोकके सभी मनुष्य जिस प्रकार अपनी-अपनी करनीका फल भोगते हैं, वह सब बता रहा हूँ, सुनो—ओ मनुष्य दूसरोंका प्राण लेनेके लिये हाथमें डंढा लिये सब भयंकर रूप धारण किये रहता है, जो प्रतिदिन हथियार लेकर प्राणियोंकी हत्या किया करता है, जिसके भीतर दया नहीं होती, जो समस्त प्राणियोंको सर्वथा उद्दिन करता रहता है, जिसको निन्दयता परकाष्ठाको पढ़ेको हुई होती है तथा जो चींटी और कीड़ोंको भी शरण नहीं देता, वह धीर नरकमें पड़ता है। जिसका स्वभाव इसके विपरीत है, वह पुण्य धर्मालिभ और रूपवान् होता है। हित्साप्रेमी मनुष्य अपने पाप-कर्मके कारण दूसरोंका वध, सब प्राणियोंका अग्रिय तथा अल्पामु होता है। जिसका चित्त हित्सामें लगा

होता है, वह नरकमें गिरता है और जो हित्सा नहीं करता, वह स्वर्गमें जाता है। नरकमें पड़े हुए जीवको बड़ी कठोर और भयानक यातना भोगनी पड़ती है। यदि कभी कोई नरकमें छूटकारा पाता है तो मनुष्य-योनिमें जन्म लेता है; किन्तु उसकी आयु थोड़ी ही होती है; क्योंकि जिसकी हित्सामें रचि होती है, वह अपने पाप-कर्मसे बद्ध होनेके कारण सब प्राणियोंका अग्रिय और अल्पामु होता है। इसके विपरीत जो शुद्ध हृत्समें उत्पन्न और जीवहितासे भ्रमण करनेवाला है, जिसने शस्त्र और बन्धका परित्याग कर दिया है, जिसके द्वार कभी किसीकी हित्सा नहीं होती, जो न मारता, न मारनेकी आशा देता और न मारनेवालेका अनुमोदन करता है, जिसके मनमें सब प्राणियोंके प्रति स्नेह बना रहता है तथा जो अपने ही समान दूसरोंपर भी दयावृष्टि रखता है, ऐसा पुण्य देवत्वको प्राप्त होता है अथवा यदि ब्राह्मिन् मनुष्यका जन्म मिल जाय तो वह दीर्घायु और सुखी होता है। यह शक्तिकका अनुष्ठान करनेवाले महाशारी एवं दीर्घ-जीवी मनुष्योंका मार्ग है। जीवहिताका परित्याग करनेसे इसकी उपलब्धि होती है। स्वर्ग-ब्रह्माज्ञाने इस मार्गका उपदेश किया है।

स्वर्ग और नरककी प्राप्ति करानेवाले कर्मोंका वर्णन

पार्वतीने पूछा—भगवन्! किस प्रकारके शील, आचरण, कर्म और बानके द्वारा मनुष्य स्वर्गमें जाता है?

महेश्वरने कहा—देवि! जो मनुष्य ब्राह्मणोंका सम्मान और बान करता है; धीन, दुखी और दरिद्र मनुष्योंको मलय-भोग्य, भद्र-दान और वस्त्र प्रदान करता है; ठहरेके स्थान, धर्मशाला, कुआँ, प्याऊँ और चायड़ी आदि बनवाता है; सेनेवाले लोगोंकी इच्छा पूछ-पूछकर निज देने योग्य वस्तुएँ बान करता है; आसन, शय्या, सबारो, गृह, रत्न, धन-धान्य, गौ, खेत और कन्याओंका प्रसन्नतापूर्वक बान करता है, वह देवलोकेमें निवास करता है और पुण्यकर्मोंका भोग समाप्त होनेपर यहाँसे मनुष्यलोकमें आकर सुप्त-सामप्रियसे सम्पन्न उत्तम कुलमें जन्म लेता है। उसके पास धन-धान्यकी कमी नहीं होती। धान देनेवाले प्राणी ही ऐसे महान् शीमागम्यसे युक्त होते हैं—यह बात ब्रह्माग्निने बहुत पहलसे ही बता रक्षी है। डाता पुण्य सबके प्रिय होते हैं। इनके सिवा बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं, जो किसीकी कुछ देनेमें रंजूरी करने हैं। वे मन्वबुद्धि पुण्य ब्राह्मणोंके माननेपर अपने पास धन होते हुए भी कुछ नहीं देते। शीनों, अंधों, बच्चों,

मिलमंगों और अतिपियोंको देसते ही हट जाने हैं। उनके पाचना करनेपर भी जिह्वाकी सोसुपताके कारण भद्र नहीं देते। कभी भी धन, वस्त्र, भोग, सुवर्ण, गौ और भद्रकी बनी हुई नाना प्रकारकी साध वस्तुओंका दान नहीं करते। इस प्रकारके अंधर्मों, लोभी, नास्तिक एवं दानसे भी बुराने-वाले मूर्ख मनुष्य नरकमें पड़ते हैं। यदि ब्राह्मणके केसों से पुनः मनुष्य-योनिमें जन्म लेते हैं तो निपटन कुलमें ही उत्पन्न होते हैं। वे हमेशा भूत-व्यासता बट्ट सारते हैं, सब लोग उन्हें अपने सामाजसे बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकारके भोगोंसे निराग होकर पापाचारसे जोरिबरा चलाने हैं अथवा वे पीरे-से बंधववाले कुलमें उत्पन्न होते और थोड़े ही भोग भोगते हैं।

इनके सिवा, दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं जो सब गर्ब और अविमानमें फूले और पापमें परामग्न रहते हैं। जो मूर्ख मार्ग देने योग्य पुरखोंको जानेके लिये मार्ग नहीं देते, पाप भ्रमण करने योग्य पुत्रनीय ध्वनिप्योंके पाप (पर छोनेके लिये जन्म) नहीं देते, अर्थ्य देने योग्य पुरखोंका विधिगन् शक्य और पूजन नहीं करते अथवा उन्हें अर्थ्य और आभवाभोग नहीं देते,

शुद्धके आनेपर प्रेमपूर्वक उनको पूजा नहीं करते तथा अभिमान और लोभके चखीभूत होकर सम्माननीय पुरुषोंका अपमान एवं वृद्धजनोंका तिरस्कार करते हैं, इस प्रकारके आचरण करनेवाले सभी लोग नरकनामी होते हैं और जब वे नरकको छूटकारा पाते हैं तो वृत्त यथाके बाव अत्यन्त निन्दित कुलमें उत्पन्न होते हैं। सुग और बड़े-बूढ़ोंका अपमान करनेवाले मनुष्योंका मूल्य एवं पणित पाण्डुत्वोंके कुलमें जन्म होता है। जिसमें गर्व और अभिमानका नाम नहीं होता, जो वेद्यता और धार्मिकताकी पूजा करता है, संसारके लोग जिसे पूज्य मानते हैं, जो बड़ोंको प्रणाम करनेवाला, विनयी, भीठे घबरा मोलनेवाला, सब वर्णोंका प्रिय और सम्पूर्ण प्राणियोंका हित करनेवाला है, जिसका किसीके साथ द्वेष नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न और रजभाव कोमल है, जो स्वागतपूर्वक स्नेहभरी थाणी मोलता है, किसी भी प्राणीको हिंसा नहीं करता तथा सबका सत्कार और पूजन करता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुषको मार्ग देता, सुखका यथोचित सत्कार करता और अतिथियोंको आमन्त्रित करके उनको पूजा करता है—ऐसा मनुष्य स्वर्गको प्राप्त होता है। फिर चर्हाका भोग समाप्त होनेपर मनुष्य-योनिमें आकर यह उत्तम कुलमें उत्पन्न होता है। चर्हा सब प्राणी उसका आवर करते हैं और सब लोग उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मोंका फल सदा स्वयं ही भोगता है। धर्मात्मा मनुष्य सर्वथा उत्तम कुल, उत्तम जाति और उत्तम स्थानमें जन्म धारण करता है। यह साक्षात् प्रज्ञाजीके बताने हुए धर्मका भेद वर्णन किया है।

—


पार्वतीजीके द्वारा स्त्री-धर्मका वर्णन

नारदजी कहते हैं—सबनन्तर, भगवान् शंकरको भी पार्वतीजीके मुँहसे कुछ सुननेकी इच्छा हुई, इसलिये उन्होंने पास ही बैठी हुई अपनी प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्वतीसे कहा—'वैधि ! तुम भूत और भविष्यको जाननेवाली, धर्मके सत्यका ज्ञान रखनेवाली और स्वयं धर्मका आचरण करनेवाली हो, अतः मैं तुम्हारे मुँहसे स्त्री-धर्मका वर्णन सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी सहधर्मिणी हो, तुम्हारा शील, तुम्हारा व्रत तथा तुम्हारे बल और पराक्रम भी मेरे ही समान हैं। तुमने तीव्र तपस्या की है। यदि तुम स्त्री-धर्मका वर्णन करोगी तो यह विशेष साहाय्यक होगा और जगत्में प्रामाणिक माना जायगा। सिताई इसका विशेष आवर करेंगी; क्योंकि स्त्रीवर्गकी परम गति गौरीमें ही प्रतिष्ठित है। संसारमें

जिस मनुष्यका आचरण प्रारम्भसे भरा हुआ है, जो समस्त जीवोंके लिये भयंकर है, जो हाथ, पैर, रस्ती, डंडे और डेलेसे मारकर, संभेमें बांधकर तथा घातक शस्त्रोंका प्रहार करके जीव-जन्तुओंको सताता और भयावह रूप धारण करके उनपर आक्रमण करता है, ऐसे स्वभाववाले मनुष्यको नरकमें गिरना पड़ता है और फाल्गुनमें पड़कर यदि वह मनुष्य-योनिमें आता है तो अनेकों प्रकारकी विघ्न-बाधाओंसे कष्ट उठानेवाले अधम कुलमें उत्पन्न होता है, ऐसा मनुष्य अपने किये हुए कर्मोंके अनुसार जगत्में नीच सम्माना जाता है और सब लोग उससे द्वेष रखते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियोंके प्रति व्यावृष्टि रखता है, सबको मित्र समझता है, सबके ऊपर पिताके समान स्नेह रखता है, किसीके साथ बंद नहीं करता और इन्द्रियोंको यशमें किये रहता है, जो हाथ-पैर आदिको अपने अधीन रखकर किसी भी जीवको न उद्देगमें डालता और न मारता ही है, सब प्राणी जिसपर विश्वास करते हैं, जो रस्ती, डंडे, डेले और हथियारसे भी किसी प्राणीको दुःख नहीं पहुँचाता, जिसका कर्म मृदु होता है तथा जो सब ही पयाभावसे युक्त रहता है, ऐसे स्वभाव और आचरणवाला पुरुष स्वर्गलोकके विषय भयानमें वेद्यताओंकी भाँति आनन्दपूर्वक निवास करता है। फिर पुण्यकर्मोंके क्षीण होनेपर यदि वह मृत्युलोकमें जन्म लेता है तो उसके ऊपर बाधाओंका आक्रमण कम होता है। वह निर्भय, सुखी तथा आयास और उद्देगसे रहित जीवन व्यतीत करता है। वैधि ! यह सज्जन पुरुषोंका मार्ग है, जहाँ किसी प्रकारकी विघ्न-बाधा नहीं आने पाती।

यह बात सदासे ही विदित है। शुभे ! स्त्रियोंके सनातन फाल्गुने प्रचलित सम्पूर्ण धर्मोंका तुम्हें अच्छी तरह ज्ञान है, अतः तुम स्वधर्म (स्त्री-धर्म) का विस्तारके साथ वर्णन करो।'

पार्वतीने कहा—भगवन् ! आप सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी हैं, आपके प्रभावसे मेरी व्याप्त-शक्तिके यह प्रतिभा आ जाय (जिससे मैं आपके प्रश्नका उत्तर दे सकूँ)। यह देखिये, ये नवियाँ सम्पूर्ण तीर्थोंका जल लेकर आपके चरणोंका स्पर्श करनेके लिये आपकी सेवामें उपस्थित हो रही हैं। इन सबके साथ सलाह करके मैं स्त्रियोंके धर्मका वर्णन करूँगी। स्त्री स्त्रीका ही अनुसरण करती है, अतः मैं इन उत्तम सरिताओंका सम्मान करूँगी। ये परम पवित्र सरस्वती नदी हैं, जो सब



नदियोंमें उत्तम हैं। सरिताओंमें सबसे पहले इन्होंका प्रादुर्भाव हुआ है। ये समुद्रमें मिली हुई हैं। इनके सिवा ये विषागा, पितस्ता, चन्द्रमागा, इरावती, शतद्रु, देविका, सिन्धु, कौशिकी और गौतमी (गोदावरी) भी यहाँ विराजमान हैं। समस्त सरिताओंमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण तोषिके जलसे सम्पन्न ये देवनदी गङ्गाभी हैं, जो आकाशसे भूमिपर उतर आयी हैं।

महादेवजीसे यों कहकर पार्वतीजीने स्त्री-धर्मके ज्ञानके कुशल गङ्गा आवि श्रेष्ठ नदियोंसे किंचित् मुसकराते हुए पूछा—'सरिताओ! भगवान् शंकरने मुझसे स्त्री-धर्मके विषयमें प्रश्न किया है, अतः मैं आपलोगोंसे सलाह लेकर उनके प्रश्नका उत्तर देना चाहती हूँ।' इस प्रकार जब पार्वतीजीने उन परम पवित्र और कल्याणमयी सरिताओंसे प्रश्न किया तो सबने मिलकर देवनदी गङ्गाको ही सम्मानित करके उन्हें उत्तर देनेके लिये नियुक्त किया। तब नाना प्रकारके बुद्धिमेंसे सम्पन्न, स्त्री-धर्मको जाननेवाली, पापका भय दूर करनेवाली, परम पवित्र, सब धर्मोंमें कुशल और विनयशीला गङ्गाजी मुसकराकर गिरिराजकुमारी उपासे बोलीं—'देवि! तुम धर्ममें तत्पर रहनेवाली और सम्पूर्ण जगत्की पूजनीया हो। तुम जो यह प्रश्न करके मुझ-जैसी एक साधारण नदीको आदर दे रही हो, इसने मैं अपनेको धन्य और अनुग्रहीत समझती हूँ। जो सब कुछ जानते हुए भी दूसरोंसे प्रश्न करता है और गूढ़ हृदयमें उन्हें

आदर देता है, वही वास्तवमें पवित्र रहता है। जो ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न और उदासीनमें कुशल वचनामति अपने असीम विषयको पूछ लेता है, वह कभी संकटमें नहीं पड़ता। बुद्धिमान् मनुष्य जब सामान्य कुछ बोधता है तो उसको बातें साधारण मनुष्योंसे विसर्ज्य—प्रीतिपूर्वक बरी टूट होनी हैं; किन्तु बुद्धिहीन अहंकारी मनुष्यकी बात और ही अंगरी निकलती है, उसमें कुछ कम नहीं रहता। अतः देवि! तुम दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न हो, इसलिये तुम्हीं हमलोगोंकी स्त्री-धर्मका उपदेश करने योग्य हो।'

इस प्रकार गङ्गाजीने जब बहुत-से गुणोंका बरतान करके पार्वतीजीके प्रश्नाका जवाब तो उल्लेख किया—'देवि! मुझे स्त्रियोंके धर्मका ज्ञान है उससे अनुग्रह उगवा विधिपूर्वक यर्जन करती हूँ, तुम क्या देकर गुणों—विद्यालोकें तमय कन्याके भाई-बन्धु पहले ही उसे स्त्री-धर्मका उपदेश कर देते हैं जब कि वह अग्निसे समीप अपने पतिसे सहृदयिणी बनती है। जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम हों; जिसको देखते ही पतिको गुण मिलना हो; जो अपने पतिसे सिवा दूसरे किसी पुरुषमें मन नहीं लगायी और स्वामीके समस्त सदा प्रसन्नमुख बनी रहती है, वह स्त्री धर्माचरण करनेवाली मानो गयी है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामीको सदा देवतुल्य समझती है, वही धर्मपरायण और यही धर्मके फलको भागिनी होती है। जो पतिसे देवताके समान सेवा-शुभ्र्या और परिचर्या करती, पतिसे गिवा और किसीसे हासिक प्रेम नहीं करती, कभी रंज नहीं होती तथा उत्तम व्रतका पालन करती है, जो पुत्रके सुखको भाँति स्वामीके सुखकी और सब निहालती रहती है और निर्यामित आहारका सेवन करती है, वह साध्वी स्त्री धर्मचारिणी है। 'पति और पत्नीको एक साथ रहकर धर्मका आचरण करना चाहिये' इस मङ्गलमय दाम्पत्य-धर्मको सुनकर जो स्त्री धर्मपरायण हो जाती है, वह पतिसे समान व्रतका पालन करनेवाली (पतिव्रता) है। साध्वी स्त्री सदा अपने पतिसे देवताके समान देखती है। पति और पत्नीका यह गृहधर्म (साय-माय रहकर धर्माचरण करना) रूप धर्म परम मङ्गलमय है। जो अपने हृदयके अनुरागके कारण स्वामीसे अधीन रहती है, अपने चित्तको प्रसन्न रखती है, उत्तम व्रतका पालन करती है और देखनेमें सुन्दर—सुन्दर रेष धारण किये रहती है, जिसका चित्त अपने पतिसे गिवा और किसीसे चिन्तन नहीं करता, वह प्रसन्नवदन रहनेवाली स्त्री धर्मचारिणी मानो गयी है। जो स्वामीके बटोर बचन करने का दूर दृष्टिते देखनेपर भी प्रसन्नतासे मुग्धरानी रहती है, वही स्त्री पतिव्रता है। पतिसे गिवा दूसरे किसी पुरुषकी ओर



धेवाकर विस्मित हुए और हमें पूर्वकालकी यात स्मरण हो आयी। प्रभो! धेवाधिदेव भगवान् शंकरने इस प्रकार आपके माहात्म्यका वर्णन किया था।

तपोवननिवासी ऋषियोंके इस प्रकार कहनेपर देवकी-नन्दन श्रीकृष्णने उन सायका विशेष सत्कार किया। तदनन्तर, धे महर्षि पुनः हृष्यं भरकर बोले—'मधुसूदन! आप हमें दारद्वार दर्शन देते रहनेकी कृपा करें। आपका जो यह अवतार अथवा मानव-शरीरमें जन्म हुआ है और इसका जो गुप्त कारण है, यह हम हमलोग अपनी चपलताके कारण छिपानेमें असमर्थ हैं। इसीलिये आपके रहते हुए भी हम छोटे मुँह बड़ी बात कर रहे हैं। पृथ्वीपर अथवा स्वर्गमें कोई भी ऐसी आश्चर्यकी बात नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो। आप सब कुछ जानते हैं। अच्छा, अब हमें जानेकी आशा कीजिये।'

श्रीकृष्णजी कहते हैं—पृथिवी! धे महर्षि उन धेवाधिदेव पुरुषोत्तमको प्रणाम और उनकी प्रवक्षिणा करके चले गये। तदनन्तर, परम कान्तिसे धेवीप्यमान भगवान् नारायण अपने शक्तको विधिवत् समाप्त करके द्वारकापुरीमें आये। उसके धाय दसवां महीना पूर्ण होनेपर रथिभणोंके गर्भसे एक बड़ा सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी कान्ति बड़ी अबूत थी। यह भगवान्का वंश चलानेवाला और शूरवीर है। सम्पूर्ण प्राणियोंके मानसिक संकल्पमें व्याप्त रहनेवाला और देवताओं

सथा असुरोंके भी अन्तःकरणमें निवास करनेवाला कामदेव ही श्रीकृष्णके पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुआ है। ये ही वे पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण हैं, जो मेघके समान श्याम वर्ण और चार भुजाधारी हैं। इन्द्र आवि तंतीस देवता इन्हींके स्वरूप हैं। ये ही सम्पूर्ण प्राणियोंको आश्रय देनेवाले आविदेव महादेव हैं। इनका न आवि है न अन्त। ये अव्यक्तस्वरूप महातेजस्वी नारायण देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं। ये दुर्बोध सत्त्वके द्रवता और कर्ता हैं। कुन्तीनन्दन! तुम्हारी सम्पूर्ण विजय, अतुलनीय कीर्ति और अखिल भूमण्डलका राज्य—सब भगवान् नारायणका आश्रय लेनेसे ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ये अचिन्त्यस्वरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक और परम शक्ति हैं। तुमने स्वयं होता घनकार प्रलयकालीन अग्निके समान तेजस्वी श्रीकृष्णको सूया बनाया है और इनके द्वारा समराग्निकी ज्वालामें सम्पूर्ण राजाओंकी आहुति दे डाली है। आज दुर्बोधन अपने पुत्र, भाई और सम्बन्धियोंसहित शोकके योग्य हो गया है; क्योंकि उस मूलने शोधके आवेसमें आकर श्रीकृष्ण और अर्जुनसे युद्ध ठाना था। कितने ही विशाल शरीरवाले महा-बली वैश्य और धान्य धायानलमें दग्ध होनेवाले पतङ्गोंकी तरह श्रीकृष्णकी चक्राग्निमें स्वाहा हो चुके हैं। सत्त्व (धैर्य) शक्ति और बल आविमें स्वभायतः हीन मनुष्य युद्धमें श्रीकृष्णका मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन भी योगशक्तिसे सम्पन्न और युगान्तकालकी अग्निके समान तेजस्वी हैं। ये धायें हाथसे भी धाण चलाना जानते हैं और रणभूमिमें सबसे आगे रहते हैं। इन्होंने अपने तेजसे दुर्बोधनकी सारी सेनाका संहार कर डाला है, अतः तुम्हें अपने सगे-सम्बन्धियोंके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

वेदा! मैंने इन भगवान् श्रीकृष्णका माहात्म्य जैसा सुना था यह सब तुम्हें कह सुनाया। उनकी महिमाको समझनेके लिये इतना ही पर्याप्त है। राज्ञोंके लिये विद्वान्मात्र अपेक्षित होता है। मैंने व्यासजी और मुक्तिमान् नारदजीके वचन सुनकर परम पूज्य श्रीकृष्ण और महर्षियोंका महान् प्रभाव धतलाया है, साथ ही शिव-पार्वती-संवादका भी वर्णन किया है। जो महापुरुष श्रीकृष्णके इस प्रभावको सुनेगा और याद रखेगा, उसको परम कल्याणकी प्राप्ति होगी। अतः जिसके कल्याणकी इच्छा हो, उस पुरुषको जनार्दनकी शरण लेनी चाहिये। श्रावण भी इन्हीं अवधाय परमात्माकी स्तुति करते हैं। राजन्! तुम सदा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते रहो। प्रजाकी रक्षाके लिये जो वण्डका उचित उपयोग किया जाता है, वह धर्म ही कहलाता है। भगवान् शंकरका पार्यंतीजीके साथ जो धर्मविषयक संवाद हुआ था, उसे इन

सन्तुष्टपोकैः निकटं मेने तुम्हें सुना दिया । अपना बल्ग्याण चाहनेवाले पुरषको यह संवाद सुनकर या सुननेको इच्छा रखकर विष्णुद्वै भावसे भगवान् शंकरकी पूजा करनी चाहिये । उनको पूजाका संदेश देवर्षि नारदजीका ही दिया हुआ है, इसलिये तुम भी ऐसा ही करो । भगवान् धीरुष्ण और महादेवजीका यह अद्भुत वृत्तान्त पूर्वकालमें हिमातप पर्यन्तपर संघटित हुआ था । कमलनयन धीरुष्ण और अर्जुन—ये सत्ययुग आदि तीनों युगोंमें उत्पन्न होनेके कारण त्रियुग कहलाते हैं । देवर्षि नारद तथा व्यासजीने मुझे इन दोनोंके स्वरूपका परिचय दिया था । महाबाहु धीरुष्णने तो बचपनमें ही अपने बन्धु-बन्धवोंकी रक्षाके लिये कंसका घोर संहार किया था । ये सनातन पुराणपुष्ट हैं, इनके सीता-चरित्रोंकी कोई सीमा या संख्या नहीं बतलाया जा सकता । नरधेष्ट ! तुम्हारा तो अवश्य ही कल्याण होगा; क्योंकि ये जनार्दन तुम्हारे सखा हैं । दुर्बेदि दुर्गोचन यद्यपि परलोकमें

बला गया है तो भी मुझे तो उसीके लिये अग्रिम शोक हो रहा है; क्योंकि उसीके कारण हाथी-घोड़े आदि घातोंमें गिरि सारी मनुष्योंका नाश हुआ है । दुर्गोचन, दुःनाशन, बन् और शकुनि—इन्हीं चारोंके अत्यायने समस्त शौर्य मारे गये हैं ।

धर्मशम्पायनजी कहते हैं—गङ्गानन्दन भीष्मके इस प्रकार करनेपर महात्मा पुरषोकैः बीचमें बैठे हुए मुग्धिष्ठिर धुप हो गये । भीष्मजीकी बातें सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजाओंको बड़ा विस्मय हुआ और वे मन-रौ-मन धीरुष्णकी पूजा करने उठे हाथ जोड़ने लगे । नारद आदि ऋषि भी भीष्मजीके यथन सुनकर उनको प्रशंसा करते हुए बत प्रसन्न हुए । इस प्रकार पाण्डुनन्दन मुग्धिष्ठिरने अपने सव भाइयोंके साथ यह भीष्मजीका सब अनुशासन सुना, जो अत्यन्त आश्चर्यजनक और परम पवित्र है । तदनन्तर, बड़ी-बड़ी वशिष्ठाभोका दान करनेवाले गङ्गानन्दन भीष्मजी जब विद्याम से चुके तो महाबाहुदमान् राजा मुग्धिष्ठिर पुनः प्रश्न करने लगे ।

विष्णुसहस्रनाम

धर्मशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! धर्मपुत्र राजा मुग्धिष्ठिरने सम्पूर्ण विधिद्वय धर्म तथा पापोंका क्षय करनेवाले धर्मरहस्योंकी सब प्रकार सुनकर भ्रान्तनुयुव भीष्मसे फिर पूछा ॥

मुग्धिष्ठिर बोले—समस्त जगत्में एक ही देव कौन है ? तथा इस लोकमें एक ही परम आश्रय-स्थान कौन है ? जिसका साक्षात्कार कर लेनेपर जोबकी अविद्यारूप द्वन्द्व-प्रणय टूट जाता है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं । किस देवकी स्तुति—गुण-कीर्तन करनेसे तथा किस देवका नाम प्रकाशसे बाल्य और आन्तरिक पूजन करनेसे मनुष्य कल्याणको प्राप्त कर सकते हैं ? आप समस्त धर्मोंमें पूर्वोक्त सहायोंसे मुक्त किस धर्मको परम धेष्ट मानते हैं ? तथा किसका जप करनेसे जननधर्मा जीव जन्म-मरणद्वय संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥

भीष्मजीने कहा—स्वायम्भुव-जन्ममरण संसारके स्वामी, ब्रह्मादि देवोंके देव, देव, क्वात् और यस्तुते अपरिच्छिन्न, शर-भ्रष्टारसे धेष्ट पुरषोत्तमका सहस्र नामोंके द्वारा निरन्तर तत्पर रहकर गुण-संकीर्तन करनेसे पुष्ट सब दुःखोंसे पार हो जाता है तथा उसी विनाशरहित पुरषका सब समय भक्तिसे युक्त होकर पूजन करनेसे, उसीका ध्यान करनेसे तथा पूर्वोक्त प्रकारसे सहायनामोंके द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करनेसे पूजा करनेवाला सब दुःखोंसे छूट जाता है । उस अन्ध-मृत्यु आदि छः भावद्वारोंसे रहित, सर्वभारक, सम्पूर्ण

सौकीके महेश्वर, लोकाध्यक्ष देवकी निरन्तर स्तुति करनेसे मनुष्य सब दुःखोंसे पार हो जाता है । जगत्की रचना करनेवाले ब्रह्माके तथा ब्राह्मण, तप और भुक्तिके हितकारी, सब धर्मोंके जाननेवाले, प्राणियोंकी कीर्तिके (उनमें अपनी शक्तिसे प्रविष्ट होकर) बढ़ानेवाले, सम्पूर्ण सौकीके स्वामी, समस्त भूतोंके उत्पत्ति-स्थान एवं संसारके कारणरूप परमेश्वरका स्तवन करनेसे मनुष्य सब दुःखोंसे छूट जाता है । विधिद्वय सम्पूर्ण धर्मोंमें मैं इसी धर्मको सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य अपने हृदयकाममें विराजमान कमलनन्दन भगवान् वासुदेवका प्रतिपूर्वक तत्परतारहित गुण-संकीर्तन-रूप स्तुतियोंसे तदा प्रयत्न करे । जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम परायण हैं, वही समस्त प्राणियोंकी परम गति है । पृथ्वीपते ! जो पवित्र करनेवाले तीर्थादिधर्मों परम पवित्र है, मङ्गलौंका मङ्गल है, देवोंका देव है तथा जो भूत-प्राणियोंका अविनाशी पिता है, करनेसे स्मरणमें मिलने सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर दुःखका क्षय होनेपर महाप्रसन्नपमे जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस शीघ्रप्रदान, संसारके स्वामी, भगवान् विष्णुके पाप और संसारमज्जे दूर करनेवाले हजारा नामोंके मन्त्रमे तुम । जो नाम मुझे कारण प्रयुक्त हुए हैं, उनमें जो-जो अतिशय हैं और अत्यन्त सुनिर्मल हैं, उन अतिशयप्रभाव महाभाके उन समस्त भागोंकी पुष्टपाप-निर्दिष्टके लिये बर्णन करता हूँ ।

४३ सच्चिदानन्दस्वरूप, १ विश्वम्-समस्त वास्तुके कारणरूप, २ विष्णुः-सर्वव्यापी, ३ वषट्कारः-जितके उद्देश्यसे वरमें वषट् क्रिया की जाती है, ऐसे वरस्वरूप, ४ मृतमध्यमवक्षसुः-मृत, मविष्णु और वीरानाके स्वामी, ५ मृतहृत्-रजोगुणका आश्रय लेकर ब्रह्मात्मसे सम्पूर्ण मृतोंकी रचना करनेवाले, ६ मृतपृत्-उत्त्वगुणका आश्रय लेकर सम्पूर्ण मृतोंका पारन-मोक्षण करनेवाले, ७ भावः-निरूपस्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होनेवाले, = मृतात्मा-सम्पूर्ण मृतोंके आत्मा अर्थात् कल्पवृक्षी, ८ मृतप्रायः-मृतोंकी वसति और वृद्धि करनेवाले ॥

१० मृतात्मा-मृतिशाला, ११ परमात्मा-परमश्रेष्ठ निरूप-वृद्ध-वृद्ध-सुखस्वभाव, १२ मुक्तानां परमा गतिः-मुक्त पुत्रोंकी सर्वश्रेष्ठ गतिस्वरूप, १३ अश्रयः-कमी विनाशकी शान्त न होनेवाले, १४ दुःखः-पुर अर्थात् शरीरमें दुःख करनेवाले, १५ क्षत्री-विना किसी व्यवसायके सब कुछ देखनेवाले, १६ श्रेष्ठः-श्रेष्ठ अर्थात् समस्त प्रकृतिसम श्रेष्ठोंको प्रशंसना करनेवाले, १७ अक्षर-कमी क्षीण न होनेवाले ॥

१८ योग-सदसहित सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियोंके निरोधरूप योगसे शान्त होनेवाले, १९ योगविदां नेत्रा-योगकी जानने-वाले मरुतोंके योगसेनादिका निरोध करनेमें अक्षर रहनेवाले, २० प्रधानमुख्येश्वर-प्रकृति और पुरुषके स्वामी, २१ नारीसहस्रुः-सहस्र और निहू दोनोंके-वैसा शरीर धारण करनेवाले, नारीसहस्र, २२ श्रीमान्-वजःस्वरूपमें मना श्रीको धारण करनेवाले, २३ केवधः-(क) कथा, (ख) विष्णु और (ई) मङ्गल-इस प्रकार त्रिमूर्तिसवरूप, २४ पुत्र्योत्सवः-सर और अक्षर इन दोनोंमें सर्वथा उत्पन्न ॥

२५ सर्वः-सर्व और सर्व-सर्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रणयके स्वतः, २६ शर्वः-सारी प्रजाका प्रणयकारणमें संहार करनेवाले, २७ शिवः-दोनों गुणोंसे परे कल्प्यात्मस्वरूप, २८ स्यात्-स्थिर, २९ मृतादि-मृतोंके आदि कारण, ३० निर्विषयः-प्रणयकारणमें सब प्राणियोंके नीचे होनेके अविकारी स्वतन्त्र, ३१ सम्पन्नः-सर्वको इच्छासे मनी प्रहार प्रकट होनेवाले, ३२ भावनः-समस्त मोक्षार्थोंके मनीको उत्पन्न करनेवाले, ३३ मर्त्यः-सर्वका मरण करनेवाले, ३४ प्रपन्नः-उत्कृष्ट (विष्णु) सम्पन्न, ३५ प्रभुः-सर्वके स्वामी, ३६ ईश्वरः-सर्वशक्तिवृत्त मुख्यदेवाले ॥

३७ स्वप्नः-स्वप्न उत्पन्न होनेवाले, ३८ शम्भुः-सर्वको निम्ने मुख उत्पन्न करनेवाले, ३९ आश्रितः-हाथ आश्रितोंमें विष्णुमन्त्र आश्रित, ४० वृक्षशालः-कल्पके

समान नेत्रवाले, ४१ महास्वनः-वेदरूप अमन्त्र महान् घोषवाले, ४२ अनारिनिघनः-जन्म-मृत्युसे रहित, ४३ धात्रा-विद्वको धारण करनेवाले, ४४ विधात्रा-कर्म और उसके फलोंकी रचना करनेवाले, ४५ धानुदत्तमः-कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रयत्नको धारण करनेवाले एवं सर्वश्रेष्ठ ॥

४६ अप्रमेयः-प्रमाणादिसे जाननेमें न आ सकनेवाले, ४७ हृषीकेशः-इन्द्रियोंके स्वामी, ४८ पशुनाथः-जगत्के कारणरूप कल्पको अपनी गतिमें स्थान देनेवाले, ४९ अमरप्रभुः-देवताओंके स्वामी, ५० विश्वकर्मा-माने जगत्की रचना करनेवाले, ५१ मनुः-जजापति मनुस्वरूप, ५२ स्वष्टा-संहारके समय सम्पूर्ण प्राणियोंको शीघ्र करनेवाले, ५३ स्वविष्णुः-अत्यन्त स्थूल, ५४ स्वविरो ध्रुवः-अति प्राचीन, एवं अत्यन्त स्थिर ॥

५५ अप्राहः-मनसे ग्रहण न किये जा सकनेवाले, ५६ गार्हपत्यः-सब काममें स्थित रहनेवाले, ५७ कृष्णः-सबके चित्तकी वलाकारणसे अपनी और आकर्षित करनेवाले ध्यानमुन्दर सच्चिदानन्दनय भगवान् श्रीकृष्ण, ५८ सौहितायः-नाल नेत्रोंवाले, ५९ प्रतर्दनः-प्रलयकालमें प्राणियोंका संहार करनेवाले, ६० प्रभूतः-ज्ञान, ऐश्वर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न, ६१ विष्णुकृष्ण-अमर-नीचे और मध्यवेद-वाली तीनों दिशाओंके आश्रयरूप, ६२ पवित्रम्-सर्वको पवित्र करनेवाले, ६३ मङ्गलं परम्-परम मङ्गल ॥

६४ ईशानः-सर्वमृतोंके नियन्ता, ६५ प्राणवः-सर्वको प्राण देनेवाले, ६६ प्राणः-सर्वको जीवित रखनेवाले प्राण-स्वरूप, ६७ श्रेष्ठः-सर्वके कारण होनेसे सर्वसे बड़े, ६८ श्रेष्ठः-सर्वमें उत्कृष्ट होनेसे परम श्रेष्ठ, ६९ प्रजापतिः-ईश्वररूपमें सारी प्रजाओंके नातिक, ७० हिरण्यगर्भः-ब्रह्मात्मरूप हिरण्यमय अर्धके नीचे ब्रह्मात्मरूप व्याप्त होनेवाले, ७१ भूगर्भः-पृथ्वीको गर्भमें रखनेवाले, ७२ माधवः-सर्वोंके पति, ७३ मधुमदनः-मधुनामक दैत्यकी मारनेवाले ॥

७४ ईश्वरः-सर्वशक्तिमान् ईश्वर, ७५ विश्वी-सुरकीरामसे युक्त, ७६ धन्वी-शाङ्गधनुष रखनेवाले, ७७ मेधावी-आदिभय वृद्धिमान्, ७८ विश्वमः-गर्ह पत्नीद्वारा मरण करनेवाले, ७९ अमः-काल-विघ्नकारके कारण, ८० अनुपमः-सर्वोत्कृष्ट, ८१ दुराधर्मः-किसीमें भी विरह्यत न हो सकनेवाले, ८२ कृतज्ञः-अपने निमित्तसे थोड़ा-सा भी त्याग किये शरीरसे उसे वृत्त माननेवाले यानी पशु-पुण्यादि थोड़ी-सी वस्तु समर्पण करनेवालोंको भी मोक्ष दे देनेवाले, ८३ कृतिः-

पुरष-प्रयत्नके आधाररूप, ८४ आत्मयानु-अपनी ही महिषामें स्थित ॥

८५ सुरेशः-देवताओंके स्वामी, ८६ शरणम्-दीन-दुःखियोंके परम आश्रय, ८७ शर्म-परमानन्दस्वरूप, ८८ विश्वरताः-विदवके कारण, ८९ प्रजामयः-सारी प्रजाको उत्पन्न करनेवाले, ९० अहः-प्रकाशरूप, ९१ संवत्सरः-कालस्वरूपसे स्थित, ९२ अमालः-सर्पके मगान ग्रहण करनेमें न आ सकनेवाले, ९३ प्रत्ययः-उत्तम बुद्धिसे जाननेमें आनेवाले, ९४ सर्वदर्शनः-सबके दृष्टा ॥

९५ अजः-जन्मरहित, ९६ सर्वेश्वरः-समस्त ईश्वरोंके भी ईश्वर, ९७ सिद्धः-नित्यसिद्ध, ९८ सिद्धिः-सबके फलरूप, ९९ सर्वादिः-सब भूतोंके आदि कारण, १०० अच्युतः-अपनी स्वरूप-स्थितिसे कभी निकातेमें भी च्युत न होनेवाले, १०१ मृषाकथिः-धर्म और वराहरूप, १०२ अमेयात्मा-अप्रमेयस्वरूप, १०३ सर्वयोगविनिःश्रुतः-नाना प्रकारके शास्त्रोक्त साधनोंसे जाननेमें आनेवाले ॥

१०४ वधुः-सब भूतोंके वासस्थान तथा सब भूतोंमें बसनेवाले, १०५ वधुमनाः-उदार मनवाले, १०६ सत्यः-सत्यस्वरूप, १०७ समात्मा-सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक आत्मारूपसे विराजनेवाले, १०८ असम्मिक्तः-समस्त पदार्थोंसे भागे न जा सकनेवाले, १०९ समः-अब ममय समस्त विकारोंसे रहित, ११० अमोघः-भक्तोंके द्वारा पूजन, स्तवन अथवा स्मरण किये जानेपर उन्हीं वृथा न करके पूर्णरूपसे उनका फल प्रदान करनेवाले, १११ पुण्डरीकाक्षः-कमलके समान नेत्रोंवाले, ११२ ध्यकर्मो-धर्ममय कर्म करनेवाले, ११३ वृषाकृतिः-धर्मकी स्थापना करनेके लिये विग्रह धारण करनेवाले ॥

११४ दद्रुः-दुःख या दुःखके कारणको दूर भगा देनेवाले, ११५ दधुक्षिराः-दूध-रस से सितेवाले, ११६ दधु-लोकलका भरण करनेवाले, ११७ विश्वद्योतिः-विश्वको उत्पन्न करनेवाले, ११८ शुचिधवाः-पवित्र कीर्तिवाले, ११९ अपृतः-कभी न मरनेवाले, १२० शाश्वतस्थानुः-नित्य-सदा एकरस रहनेवाले एवं स्थिर, १२१ क्षरातोहः-आरूढ़ होनेके लिये परम उत्तम अनुपायवृत्तिस्थानरूप, १२२ महा-तपाः-प्रताप (प्रभाव) रूप महान् तपवाले ॥

१२३ सर्वेशः-कारणरूपमें सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, १२४ सर्वविद्मानुः-सब कुछ जाननेवाले तथा प्रकाशरूप, १२५ विद्वत्क्षेत्रः-बुद्धिके लिये की हुई संसारमात्रसे ही ईश्वरत्वको तितर-बितर कर दाखनेवाले, १२६ अनारहतः-भक्तोंके द्वारा अभ्युदय-निःश्रेयसरूप परम पुरषार्थकी याचना करनेवाले ॥

किये जानेवाले, १२७ वेदः-वेदरूप, १२८ वेदविन्-वेद तथा वेदके अर्दको यथावत् जाननेवाले, १२९ अम्यङ्गः-शांतादिसे परिपूर्ण अर्थात् किसी प्रकार अपुरे न रहनेवाले सर्वज्ञपूर्ण, १३० वेदाङ्गः-वेदरूप अङ्गोंवाले, १३१ वेद-विन्-वेदोंको विद्यानेवाले, १३२ ऋक्-जगत् ॥

१३३ सोताम्पसाः-समस्त सोकोंके अभिनिर्णय, १३४ सुराम्पसाः-देवताओंके अम्पसा, १३५ धर्माम्पसाः-अनु-रूप फल देनेके लिये धर्म और अपर्धका निर्णय करनेवाले, १३६ इताहृतः-वार्थरूपसे हृत और कारणरूपमें मृत, १३७ चतुरास्यः-सृष्टिको उत्पत्ति आदिमें लिये चार पृथक्-पृथिक्तियोंवाले, १३८ चतुर्भुजः-उत्पत्ति, स्थिति, नाश और रक्षारूप चार भूहवाले, १३९ चतुर्दशः-चार दशोंवाले नरसिंहरूप, १४० चतुर्मुखः-चार भूभागोंवाले वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णु ॥

१४१ आशिष्णुः-एकरस प्रकाशस्वरूप, १४२ भोजनम्-ज्ञानियोंद्वारा भोगने योग्य समुत्स्वरूप, १४३ भोक्ता-गुरुरूपमें भोक्ता, १४४ सहिष्णुः-मन्दगीम, १४५ अग्रावित्रः-अपत्के आदिमें हिरण्यगर्भरूपमें स्वय उत्पन्न होनेवाले, १४६ अन्वयः-आरहित, १४७ विजयः-ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणोंमें सबमें बड़कर, १४८ जेता-स्वभावमें ही समस्त भूतोंको जीतनेवाले, १४९ विश्व योनिः-विदवके कारण, १५० पुनर्बन्धुः-पुनः पुन शरीरोंमें आरमरूपमें बन्दनेवाले ॥

१५१ उपेन्द्रः-इन्द्रको अनुत्तररूपमें प्राप्त होनेवाले, १५२ वामनः-वामनरूपमें अवतार लेनेवाले, १५३ त्रीणुः-तीनों सोकोंको लीपनेके लिये त्रिविक्रमरूपमें उद्वि. होनेवाले, १५४ अमोघः-अम्ययं घेष्टावाले, १५५ शुचि-ज्मराल, स्तुति और पूजन करनेवालोंको पवित्र कर देनेवाले, १५६ क्लिप्तः-अत्यन्त बलशाली, १५७ अनोद्यः-स्वर्गिण्ड शान-ऐश्वर्यादिसे कारण इन्द्रसे भी बड़े-पड़े हुए, १५८ संपहः-प्रलयके समय सबको समेट लेनेवाले, १५९ तर्मा-सृष्टिके कारणरूप, १६० धृतात्मा-जन्मादिमें रहित रहकर स्वेच्छाओं स्वरूप धारण करनेवाले, १६१ निष्पन्न-प्रजाको मर्त्य-जाने अधिकारोंमें नियमित करनेवाले, १६२ यमः-अन्य कारणोंमें स्थित होकर नियमन करनेवाले ॥

१६३ वेदाः-मन्त्राणकी इच्छावालोंके द्वारा बानेने योग्य, १६४ वेदः-अब विद्याओंके जाननेवाले, १६५ महा-योगी-महा योगमें स्थित रहनेवाले, १६६ सोष्ण-धर्मकी रक्षाके लिये अगुरु योद्धाओंकी स्वर कामनेवाले, १६७ मायकः-विद्याके स्वामी, १६८ मनुः-अनुकी तरह सबको

प्रसन्न करनेवाले, १६९ अतीन्द्रियः—इन्द्रियोंसे सर्वथा अतीत, १७० महामायः—मायाविद्योंपर भी माया डालनेवाले महान् मायावी, १७१ महोत्साहः—जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रत्यक्षके लिये तत्पर रहनेवाले परम उत्साही, १७२ महाबलः—महान् बलशाली ॥

१७३ महाबुद्धिः—महान् बुद्धिमान्, १७४ महावीर्यः—महान् पराक्रमी, १७५ महाशक्तिः—महान् सामर्थ्यवान्, १७६ महाद्युतिः—महान् कान्तिमान्, १७७ अनिर्देश्यवपुः—अनिर्देश्य विग्रहवाले, १७८ श्रीमान्—ऐश्वर्यवान्, १७९ अमेयात्मा—जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसे आत्मा-वाले, १८० महाद्रिधृक्—अमृतमन्थन और गोरक्षणके समय मन्दराचल और गोवर्धन नामक महान् पर्वतोंको धारण करनेवाले ॥

१८१ महेष्वसः—महान् घनुषवाले, १८२ महीमर्ता—पृथ्वीको धारण करनेवाले, १८३ श्रीनिवासः—अपने वक्षःस्थलमें श्रीको निवास देनेवाले, १८४ सतां गतिः—सत्पुरुषोंके आश्रयरूप, १८५ अनिरुद्धः—सच्ची भवितके विना किसीके भी द्वारा न रुकनेवाले, १८६ सुरानन्दः—देवताओंको आनन्दित करनेवाले, १८७ गोविन्दः—वेदवाणीके द्वारा अपनेको प्राप्त करा देनेवाले, १८८ गोविदां पतिः—वेदवाणीको जाननेवालोंके स्वामी ॥

१८९ मरीचिः—तेजस्वियोंके भी परम तेजरूप, १९० दमनः—प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपसे दमन करनेवाले, १९१ हंसः—पितामह ब्रह्माको वेदका ज्ञान करानेके लिये हंसरूप धारण करनेवाले, १९२ सुपर्णः—सुन्दर पङ्खवाले गरुडस्वरूप, १९३ भृगुगोत्तमः—सर्पोंमें श्रेष्ठ शेषनागरूप, १९४ हिरण्यनाभः—हितकारी और रमणीय नाभिवाले, १९५ सुतपाः—वदरिकाश्रममें नर-नारायणरूपसे सुन्दर तप करनेवाले, १९६ पद्मनाभः—कमलके समान सुन्दर नाभिवाले, १९७ प्रजापतिः—सम्पूर्ण प्रजाओंके स्वामी ॥

१९८ अमृत्युः—मृत्युसे रहित, १९९ सर्वदृक्—सब कुछ देखनेवाले, २०० सिंहः—डुट्टोंका विनाश करनेवाले, २०१ संघाता—पुरुषोंको उनके कर्मोंके फलोंसे संयुक्त करनेवाले, २०२ संघिमान्—सम्पूर्ण यज्ञ और तपोंको भोगनेवाले, २०३ स्थिरः—सदा एकरूप, २०४ अजः—भक्तोंके हृदयोंमें जानेवाले तथा दुर्गुणोंको दूर हटा देनेवाले, २०५ दुर्मर्षणः—किसीसे भी महन नहीं किये जा सकनेवाले, २०६ शास्ता—सबपर शासन करनेवाले, २०७ विश्रुतात्मा—द-शास्त्रोंमें विशेष रूपसे प्रसिद्ध स्वरूपवाले, २०८ [रागरिहा—देवताओंके शत्रुओंको मारनेवाले ॥

२०९ गुरुः—सब विद्याओंका उपदेश करनेवाले, २१० गुरुतमः—ब्रह्मा आदिको भी ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले, २११ धाम—सम्पूर्ण प्राणियोंकी कामनाओंके आश्रय, २१२ सत्यः—सत्यस्वरूप, २१३ सत्यपराक्रमः—अमोघ पराक्रमवाले, २१४ निमिषः—योगनिद्रासे मुंदे हुए नेत्रोंवाले, २१५ अनिमिषः—मत्स्यरूपसे अवतार लेनेवाले, २१६ लग्नी—वैजयन्ती माला धारण करनेवाले, २१७ वाचस्पतिस्वराधीः—सारे पदार्थोंको प्रत्यक्ष करनेवाली बुद्धिसे युक्त समस्त विद्याओंके पति ॥

२१८ अग्रणीः—मुमुक्षुओंको उत्तम पदपर ले जानेवाले, २१९ ग्रामणीः—भूतसमुदायके नेता, २२० श्रीमान्—सबसे बड़ी-चढ़ी कान्तिवाले, २२१ न्यायः—प्रमाणोंके आश्रयभूत तर्कोंकी मूर्ति, २२२ नेता—जगत्तरूप यन्त्रको चलानेवाले, २२३ समीरणः—श्वासरूपसे प्राणियोंसे चेष्टा करानेवाले, २२४ सहस्रमूर्धा—हजार सिरवाले, २२५ विश्वात्मा—विश्वके आत्मा, २२६ सहस्राक्षः—हजार आँखोंवाले, २२७ सहस्रपात—हजार पैरोंवाले ॥

२२८ आवर्तनः—संसारचक्रको चलानेके स्वभाववाले, २२९ निवृत्तात्मा—संसारबन्धनसे मुक्त आत्मस्वरूप, २३० संवृतः—अपनी योगमायासे ढके हुए, २३१ सम्प्रमर्दनः—अपने रुद्र आदि स्वरूपसे सबका मर्दन करनेवाले, २३२ अहःसंवर्तकः—सूर्यरूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवर्तक, २३३ वह्निः—हृदिको वहन करनेवाले अग्निदेव, २३४ अनिलः—प्राणरूपसे वायुस्वरूप, २३५ धरणीधरः—बराह और शेषरूपसे पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥

२३६ सुप्रसादः—शिशुपालादि अपराधियोंपर भी कृपा करनेवाले, २३७ प्रसन्नात्मा—प्रसन्न स्वभाववाले अर्थात् कृपा करनेवाले, २३८ विश्वधृक्—जगत्को धारण करनेवाले, २३९ विश्वभुक्—विश्वको भोगनेवाले अर्थात् विश्वका पालन करनेवाले, २४० विभुः—सर्वव्यापक, २४१ सत्कर्ता—भक्तोंका सत्कार करनेवाले, २४२ सत्कृतः—पूजितोंसे भी पूजित, २४३ साधुः—भक्तोंके कार्य साधनेवाले, २४४ जह्नुः—संहारके समय जीवोंका लय करनेवाले, २४५ नारायणः—जलमें शयन करनेवाले, २४६ नरः—भक्तोंको परम धाममें ले जानेवाले ॥

२४७ असह्येयः—नाम और गुणोंकी संख्यासे शून्य, २४८ अप्रमेयात्मा—किसीसे भी मापे न जा सकनेवाले, २४९ विशिष्टः—सबसे उत्कृष्ट, २५० शिष्टकृत्—शासन करनेवाले, २५१ शुचिः—परम शुद्ध, २५२ सिद्धार्थः—इच्छित अर्थको सर्वथा सिद्ध कर चुकनेवाले, २५३ सिद्धसंकल्पः—सत्य

संकल्पवाले, २५४ सिद्धिद्वारः-कर्म करनेवालोंको उनके अधिकारके अनुसार फल देनेवाले, २५५ सिद्धिसाधकः-सिद्धिरूप क्रियाके साधक ॥

२५६ धृषाही-द्रादनाहादि यज्ञोंको अपनेमें स्थित रखनेवाले, २५७ द्युधमः-भक्तोंके लिये इच्छित वस्तुओंकी वर्षा करनेवाले, २५८ विष्णुः-सूट मत्स्यल्लि, २५९ धृषपर्षा-परम धाममें आरूढ होनेकी इच्छावालोंके लिये धर्मरूप सीढ़ियाँवाले, २६० धृषोदरः-अपने उदरमें धर्मको धारण करनेवाले, २६१ धर्मनः-भक्तोंकी बड़ानेवाले, २६२ धर्ममानः-संसाररूपसे बड़नेवाले, २६३ विविक्तः-गलारो पृथक् रहनेवाले, २६४ धृतितागाणः-वेदरूप जलके समुद्र ॥

२६५ सुमुजः-जगत्की रसा करनेवाली अति सुन्दर भुजाओंवाले, २६६ दुधरः-दूमरोंसे धारण न किये जा सकनेवाले पृथ्वी आदि लोकधारक पदार्थोंको भी धारण करनेवाले और स्वयं किसीसे धारण न किये जा सकनेवाले, २६७ धामी-वेदमयी वाणीको उत्पन्न करनेवाले, २६८ महेन्द्रः-ईश्वरोंके भी ईश्वर, २६९ धमुकः-धन देनेवाले, २७० धमुः-धनरूप, २७१ नैकरुपाः-अनेक रूपधारी, २७२ बृहद्भूषः-विश्वरूपधारी, २७३ सिधिविष्टः-सूर्यकिरणोंमें स्थित रहनेवाले, २७४ प्रकाशकः-सबको प्रकाशित करनेवाले ॥

२७५ ओजस्तेजोद्युतिधरः-प्राण और बल, शूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञानकी दीप्तिको धारण करनेवाले, २७६ प्रकाशात्मा-प्रकाशरूप, विग्रहवाले, २७७ प्रतापनः-सूर्य आदि अपनी विभूतियोंसे विरवको तप्त करनेवाले, २७८ श्रद्धाः-धर्म, ज्ञान और वैराग्यादिने सम्पन्न, २७९ स्पष्टा-क्षरः-श्रींकाररूप स्पष्ट अक्षरवाले, २८० मन्त्रः-शुक्र, मास और यज्ञरूप मन्त्रोंसे जानने योग्य, २८१ चन्द्रागुः-ममार-तापसे संतप्तचित्त पुरुषोंको चन्द्रमाकी किरणोंके ममान धाह्लादित करनेवाले, २८२ चास्करद्युतिः-सूर्यके ममान प्रकाशस्वरूप ॥

२८३ अमृताशुद्धकः-ममृदमन्थन करते समय चन्द्रमा-को उत्पन्न करनेवाले समुद्ररूप, २८४ भानुः-मामनेवाले, २८५ शशबिन्दुः-ग्रहयोगके ममान चिह्नवाले चन्द्रमाकी तरह सम्पूर्ण प्रजाता पोषण करनेवाले, २८६ सुरेश्वरः-देवताओंके ईश्वर, २८७ औषधम्-गंधाररोषहने मिटानेके लिये औषधरूप, २८८ जगतः सेतुः-सत्कारणादिको पार करनेके लिये सेतुरूप, २८९ सारधर्मपराक्रमः-नायस्वरूप धर्म और पराक्रमवाले ॥

२९० भूतमम्यभद्रापाकः-भूत, भविष्य और वर्तमान

ममी प्राणियोंके स्वामी, २९१ पवनः-वायुरूप, २९२ पावनः-दृष्टिमानसे जगत्को पवित्र करनेवाले, २९३ भवतः-अभितस्वरूप, २९४ कामहा-अपने भक्तव्रतोंके मरामभावको गष्ट करनेवाले, २९५ कामहृत्-भक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, २९६ शान्तः-भगवत्स्वरूप, २९७ कामः- (क) ब्रह्म, (अ) विष्णु, (म) महादेव-इस प्रकार त्रिवेदन, २९८ कामपदः-भक्तोंकी उनको कामना की हुई वस्तुएँ प्रदान करनेवाले, २९९ प्रभुः-सर्वोत्कृष्ट सर्वमानार्थ्यवान् स्वामी ॥

३०० युगादिहृत्-युगादिना आरम्भ करनेवाले, ३०१ युगावर्तः-चारों युगोंकी चक्रके ममान घुमानेवाले, ३०२ नैकरुपायः-अनेकों मायाओंको धारण करनेवाले, ३०३ महामानः-रत्नके अन्तमें सबको प्रदान करनेवाले, ३०४ अक्षयः-समस्त ज्ञानेन्द्रियोंके अविषय, ३०५ ध्यस्वरूपः-स्मृत्यरूपसे व्यक्त स्वरूपवाले, ३०६ सहस्रजिन्-सूक्ष्म हृदयों देवदानुओंको जीतनेवाले, ३०७ अनन्तजिन्-पुत्र और वीरा आदिमें सर्वत्र समस्त भूतोंको जीतनेवाले ॥

३०८ इष्टः-परमानन्दरूप होनेसे सर्वत्रिय, ३०९ अविशिष्टः-सम्पूर्ण विशेषणोंमें रहित सर्वश्रेष्ठ, ३१०, शिष्टेष्टः-शिष्ट पुरुषोंके इष्टदेव, ३११ शिष्टश्रीः-मपूर-पिच्छको अपना गिरोनूप बना लेनेवाले, ३१२ मृषः-भूतोंको मायासे बाँधनेवाले, ३१३ धुकः-कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, ३१४ शोषहा-शोषका नाश करनेवाले, ३१५ शोषहृत्कर्ता-दुष्टोपर शोष करनेवाले और जगत्को उनके कर्मोंके अनुसार रचनेवाले, ३१६ विश्ववापुः-जब और बाहूओंवाले, ३१७ महोद्यरः-पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥

३१८ अश्रुतः-छा भावविवारोंमें रहित, ३१९ प्रवितः-जगत्की उत्पत्ति आदि कर्मोंके धारण, ३२० प्राण-शिरस्य-गर्भरूपसे प्रजाको जीवन रखनेवाले, ३२१ प्राणरः-जगत्को प्राण देनेवाले, ३२२ वासवानुभ-धामनाधारमें ब्रह्माओं-द्वारा अदितिने इन्द्रके अनुक्रमसे उत्पन्न होनेवाले, ३२३ अपारिनिधिः-जलको एवत्रित रखनेवाले समुद्ररूप, ३२४ अधिष्ठानम्-उपादानकारणरूपमें सब भूतोंके आध्यय, ३२५ अग्रमतः-अपिवाशियोंको उनके कर्मनुसार फल देनेमें कभी प्रमाद न करनेवाले, ३२६ प्रतिष्ठितः-अपनी महिमा-में स्थित ॥

३२७ हरन्तः-स्वामिशक्तिनेमहा, ३२८ हरधरः-धर्मधरको धारण करनेवाले, ३२९ धृष्टः-जगत्की जग्यादिष्ण धृष्टोंके धारण करनेवाले, ३३० हरः-शक्ति पर देनेवाले, ३३१ वायुकारकः-गारे वायुमेंदंडी बनाने-वाले, ३३२ वायुदेवः-सत्त्व प्राणियोंको अपनेमें ब्रह्म

प्रसन्न करनेवाले, १६९ अतीन्द्रियः—इन्द्रियोंसे सर्वथा अतीत, १७० महामायः—मायावियोंपर भी माया डालनेवाले महान् मायावी, १७१ महोत्साहः—जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके लिये तत्पर रहनेवाले परम उत्साही, १७२ महाबलः—महान् बलशाली ॥

१७३ महाबुद्धिः—महान् बुद्धिमान्, १७४ महावीर्यः—महान् पराक्रमी, १७५ महाशक्तिः—महान् सामर्थ्यवान्, १७६ महाद्युतिः—महान् कान्तिमान्, १७७ अनिर्देश्यवपुः—अनिर्देश्य विग्रहवाले, १७८ श्रीमान्—ऐश्वर्यवान्, १७९ अमेयात्मा—जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसे आत्मा-वाले, १८० महाद्रिघृक्—अमृतमन्थन और गोरक्षणके समय मन्दराचल और गोवर्धन नामक महान् पर्वतोंको धारण करनेवाले ॥

१८१ महेष्वासः—महान् धनुषवाले, १८२ महीभर्ता—पृथ्वीको धारण करनेवाले, १८३ श्रीनिवासः—अपने वक्षः-स्थलमें श्रीको निवास देनेवाले, १८४ सतां गतिः—सत्यरूपोंके आश्रयरूप, १८५ अनिरुद्धः—सच्ची भक्तिके बिना किसीके भी द्वारा न रुकनेवाले, १८६ सुरानन्दः—देवताओंको आनन्दित करनेवाले, १८७ गोविन्दः—वेदवाणीके द्वारा अपनेको प्राप्त करा देनेवाले, १८८ गोविदां पतिः—वेद-वाणीको जाननेवालोंके स्वामी ॥

१८९ मरीचिः—तेजस्वियोंके भी परम तेजरूप, १९० दमनः—प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपसे दमन करनेवाले, १९१ हंसः—पितामह ब्रह्माको वेदका ज्ञान कराने-के लिये हंसरूप धारण करनेवाले, १९२ सुपर्णः—सुन्दर पङ्खवाले गरुडस्वरूप, १९३ भुजगोत्तमः—सर्पोंमें श्रेष्ठ शेषनागरूप, १९४ हिरण्यनाभः—हितकारी और रमणीय नाभवाले, १९५ सुतपाः—वदरिकाश्रममें नर-नारायणरूपसे सुन्दर तप करनेवाले, १९६ पद्मनाभः—कमलके समान सुन्दर नाभवाले, १९७ प्रजापतिः—सम्पूर्ण प्रजाओंके स्वामी ॥

१९८ अमृत्युः—मृत्युसे रहित, १९९ सर्वदृक्—सब कुछ देखनेवाले, २०० सिंहः—डुप्टोंका विनाश करनेवाले, २०१ संघाता—पुरुषोंको उनके कर्मोंके फलोंसे संयुक्त करने-वाले, २०२ संघिमान्—सम्पूर्ण यज्ञ और तपोंको भोगने-वाले, २०३ त्विरः—सदा एकरूप, २०४ अजः—भक्तोंके हृदयोंमें जानेवाले तथा दुर्गुणोंको दूर हटा देनेवाले, २०५ दुर्मर्षणः—किसीसे भी सहन नहीं किये जा सकनेवाले, २०६ शास्ता—सबपर शासन करनेवाले, २०७ विश्रुतात्मा—वेद-शास्त्रोंमें विशेष रूपसे प्रसिद्ध स्वरूपवाले, २०८ मुरारिहा—देवताओंके शत्रुओंको मारनेवाले ॥

२०९ गुरुः—सब विद्याओंका उपदेश करनेवाले, २१० गुरुतमः—ब्रह्मा आदिको भी ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले, २११ धाम—सम्पूर्ण प्राणियोंकी कामनाओंके आश्रय, २१२ सत्यः—सत्यस्वरूप, २१३ सत्यपराक्रमः—अमोघ पराक्रम-वाले, २१४ निमिषः—योगनिद्रासे मुँदे हुए नेत्रोंवाले, २१५ अनिमिषः—मत्स्यरूपसे अवतार लेनेवाले, २१६ स्रग्वी—वैजयन्ती माला धारण करनेवाले, २१७ वाचस्पतिरुदारधीः—सारे पदार्थोंको प्रत्यक्ष करनेवाली बुद्धिसे युक्त समस्त विद्याओंके पति ॥

२१८ अग्रणीः—मुमुक्षुओंको उत्तम पदपर ले जानेवाले, २१९ ग्रामणीः—भूतसमुदायके नेता, २२० श्रीमान्—सबसे बड़ी-चढ़ी कान्तिवाले, २२१ न्यायः—प्रमाणोंके आश्रयभूत तर्ककी मूर्ति, २२२ नेता—जगत्तरूप यन्त्रकी चलानेवाले, २२३ समीरणः—श्वासरूपसे प्राणियोंसे चेष्टा करानेवाले, २२४ सहस्रमूर्धा—हजार सिरवाले, २२५ विश्वात्मा—विश्वके आत्मा, २२६ सहस्राक्षः—हजार आँखोंवाले, २२७ सहस्रपात—हजार पैरोंवाले ॥

२२८ आवर्तनः—संसारचक्रको चलानेके स्वभाववाले, २२९ निवृत्तात्मा—संसारबन्धनसे मुक्त आत्मस्वरूप, २३० संबृतः—अपनी योगमायासे ढके हुए, २३१ सम्प्रमर्दनः—अपने रुद्र आदि स्वरूपसे सबका मर्दन करनेवाले, २३२ अहःसंवर्तकः—सूर्यरूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवर्तक, २३३ वह्निः—हृदिको वहन करनेवाले अग्निदेव, २३४ अनिलः—प्राणरूपसे वायुस्वरूप, २३५ धरणीधरः—वराह और शेष-रूपसे पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥

२३६ सुप्रसादः—विशुपालादि अपराधियोंपर भी कृपा करनेवाले, २३७ प्रसन्नात्मा—प्रसन्न स्वभाववाले अर्थात् कृपा करनेवाले, २३८ विश्वधृक्—जगत्की धारण करने-वाले, २३९ विश्वभृक्—विश्वको भोगनेवाले अर्थात् विश्वका पालन करनेवाले, २४० विभुः—सर्वव्यापक, २४१ सत्कर्ता—भक्तोंका सत्कार करनेवाले, २४२ सत्कृतः—पूजितोंसे भी पूजित, २४३ साधुः—भक्तोंके कार्य साधनेवाले, २४४ जह्नुः—संहारके समय जीवोंका लय करनेवाले, २४५ नारायणः—जलमें शयन करनेवाले, २४६ नरः—भक्तोंको परम धाममें ले जानेवाले ॥

२४७ असंख्येयः—नाम और गुणोंकी संख्यासे शून्य, २४८ अप्रमेयात्मा—किसीसे भी मापे न जा सकनेवाले, २४९ विशिष्टः—सबसे उल्लेख्य, २५० शिष्टकृत्—शासन करनेवाले, २५१ शुचिः—परम शुद्ध, २५२ सिद्धार्थः—इच्छित अर्थको सर्वथा सिद्ध कर चुकनेवाले, २५३ सिद्धसंकल्पः—सत्य

संकल्पवाले, २५४ सिद्धिदः-कर्म करनेवालोंको उनके अधिकारके अनुसार फल देनेवाले, २५५ सिद्धिस्थापनः-सिद्धिरूप क्रियाके साधक ॥

२५६ वृषाही-श्राद्धशाहादि यज्ञोंको अपनेमें स्थित रखनेवाले, २५७ वृषभः-भक्तोंके लिये इच्छित वस्तुओंकी वर्षा करनेवाले, २५८ विष्णुः-शुद्ध सत्त्वमूर्ति, २५९ वृषपर्व-परम धाममें धारुद्ध होनेकी इच्छावालोंके लिये धर्मरूप सीद्धियोंवाले, २६० वृषोदरः-अपने उदरमें धर्मको धारण करनेवाले, २६१ धर्मनः-भक्तोंको बढ़ानेवाले, २६२ धर्ममानः-संसाररूपसे बढ़नेवाले, २६३ विविषतः-संसारसे पृथक् रहनेवाले, २६४ श्रुतिसागरः-वेदरूप जलके समुद्र ॥

२६५ सुभुजः-जगत्की रक्षा करनेवाली अति सुन्दर भुजाओंवाले, २६६ बुधैरः-दूसरोंसे धारण न किये जा सकनेवाले पृथ्वी आदि लोकधारक पदार्थोंको भी धारण करनेवाले और स्वयं किसीसे धारण न किये जा सकनेवाले, २६७ वाम्नी-वेदमयी वाणीको उत्पन्न करनेवाले, २६८ महेश्वरः-ईश्वरोंके भी ईश्वर, २६९ वसुधः-धन देनेवाले, २७० वसुः-धनरूप, २७१ नैकरूपः-अनेक रूपधारी, २७२ मृहन्नपः-विषहरूपधारी, २७३ शिपिषिष्टः-सूर्यकिरणोंमें स्थित रहनेवाले, २७४ प्रकाशानः-सबको प्रकाशित करनेवाले ॥

२७५ भोजस्तेजोद्युतिधरः-प्राण और बल, धूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञानकी दीप्तिको धारण करनेवाले, २७६ प्रकाशात्मा-प्रकाशरूप, विग्रहवाले, २७७ प्रतापना-सूर्य आदि अपनी विभूतियोंसे विद्वयको तप्त करनेवाले, २७८ ऋद्धः-धर्म, ज्ञान और वैराग्यादिमें सम्पन्न, २७९ स्पष्टाक्षरः-ओंकाररूप स्पष्ट अक्षरवाले, २८० मन्त्रः-ऋक्, साम और यजुसरूप मन्त्रोंसे जानने योग्य, २८१ चन्द्राम्बुः-संसार-तापसे संतप्तचित्त पुरुषोंको चन्द्रभाकी किरणोंके ममान बाल्लाहित करनेवाले, २८२ धास्करद्युतिः-सूर्यके समान प्रकाशस्वरूप ॥

२८३ अमृतशुद्धिः-समुद्रमन्थन करने समय चन्द्रमा-को उत्पन्न करनेवाले समुद्ररूप, २८४ भानुः-भासनेवाले, २८५ शाश्विन्दुः-ऋणोदार्क ममान चिह्नवाले चन्द्रमाकी तरह सम्पूर्ण प्रजाका पोषण करनेवाले, २८६ सुरेश्वरः-देवताओंके ईश्वर, २८७ औषधम्-संसाररोगको मिटानेके लिये औषधरूप, २८८ जगतः सेतुः-संसारसागरको पार करनेके लिये सेतुरूप, २८९ सत्यधर्मपराक्रमः-सत्यस्वरूप धर्म और पराक्रमवाले ॥

२९० भूतमध्यमवन्नाथः-भूत, भविष्य और वर्तमान

सभी प्राणियोंके स्वामी, २९१ पवनः-वायुरूप, २९२ पावनः-दृष्टिमानसे जगत्को पवित्र करनेवाले, २९३ धनतः-अग्निस्वरूप, २९४ कामहा-अपने भक्तजनोके मन्त्रमन्त्राओंको गष्ट करनेवाले, २९५ कामहृत्-भक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, २९६ कामतः-कमनीयरूप, २९७ कामः- (क) प्रज्ञा, (अ) विष्णु, (म) महादेव-इस प्रकार त्रिदेवरूप, २९८ कामप्रदः-भक्तोंको उनकी कामना की ह्रीं वस्तुएँ प्रदान करनेवाले, २९९ प्रभुः-सर्वोत्कृष्ट सर्वमानार्थवान् स्वामी ॥

३०० युगादिहृत्-युगादिका धारम्भ करनेवाले, ३०१ युगाधरतः-चारों युगोंकी चक्रके गमान घुमानेवाले, ३०२ नैकरुमायः-अनेकों मायाओंको धारण करनेवाले, ३०३ महाशानः-कल्पके अन्तमें सबको प्रसन्न करनेवाले, ३०४ अदृश्यः-समस्त शानेन्द्रियोंके अविषय, ३०५ ध्यस्तदहः-स्थूलरूपसे ध्यक्त स्वरूपवाले, ३०६ सहस्रजित्-युद्धमें हजारों देवसामुदायको जीतनेवाले, ३०७ अन्तर्जित्-युद्ध और क्रांटा आदिमें सर्वत्र समस्त भूतोंको जीतनेवाले ॥

३०८ हृष्टः-परममन्दरूप होनेसे सर्वप्रिय, ३०९ अविशिष्टः-सम्पूर्ण विनोपणोंसे रहित सर्वश्रेष्ठ, ३१०, शिष्टेष्टः-शिष्ट पुरुषोंके हृष्टदेव, ३११ शिष्येष्टी-मयूर-पिच्छको अपना शिरोमुषण बना लेनेवाले, ३१२ मह्यः-भूतोंको मायासे बाँधनेवाले, ३१३ वृषः-कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, ३१४ क्रोधहा-क्रोधका नाग करनेवाले, ३१५ क्रोधहृत्कर्ता-दुष्टोपर क्रोध करनेवाले और जगत्को उनके कर्मके अनुसार रचनेवाले, ३१६ विश्वबाहुः-मय और बाहुओंवाले, ३१७ महौघरः-पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥

३१८ अश्रुतः-छः भावविकारोंमें रहित, ३१९ प्रथितः-जगत्की उत्पत्ति आदि कर्मके कारण, ३२० माणः-हिरण्य-गर्भरूपसे प्रजाको जीवित रखनेवाले, ३२१ प्राणवः-जयको प्राण देनेवाले, ३२२ वासवानुजः-वामनावतारमें कश्यपजी-द्वारा अदितिसे इन्द्रके अनुजरूपमें उत्पन्न होनेवाले, ३२३ अर्थातिथिः-जलको एकत्रित रखनेवाले समुद्ररूप, ३२४ अधिष्ठानम्-उपादानकारणरूपसे सब भूतोंके आश्रय, ३२५ अग्रमत्तः-अधिकारियोंको उनके कर्मानुसार फल देनेमें कभी प्रमाद न करनेवाले, ३२६ प्रतिषिष्टतः-अपनी महिमा-में स्थित ॥

३२७ स्कन्दः-स्वामिकान्तिकेयरूप, ३२८ स्वर्गधरः-धर्मपथको धारण करनेवाले, ३२९ पुषेः-गमन भूतोंके जन्मादिभ्य धुरको धारण करनेवाले, ३३० वररः-दक्षिण वर देनेवाले, ३३१ वायुवाहनः-भार वायुनेदोषों भयाने-वाले, ३३२ वामुदेवः-गमन प्राणियोंको अन्तमें बगाने-

वाले तथा सब भूतोंमें सर्वात्मारूपसे वसनेवाले, दिव्यस्वरूप, ३३३ बृहद्भानुः—महान् किरणोंसे युक्त एवं सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करनेवाले, ३३४ आदिदेवः—सबके आदि कारण देव, ३३५ पुरन्दरः—असुरोंके नगरोंका ध्वंस करनेवाले ॥

३३६ अशोकः—सब प्रकारके शोकसे रहित, ३३७ तारणः—संसारसागरसे तारनेवाले, ३३८ तारः—जन्म-जरा मृत्युरूप भयसे तारनेवाले, ३३९ शूरः—पराक्रमी, ३४० शौरिः—शूरवीर श्रीवसुदेवजीके पुत्र, ३४१ जनेश्वरः—समस्त जीवोंके स्वामी, ३४२ अनुकूलः—आत्मारूप होनेसे सबके अनुकूल, ३४३ शतावर्तः—धर्मरक्षाके लिये सैकड़ों अवतार लेनेवाले, ३४४ पद्मी—अपने हाथमें कमल धारण करनेवाले, ३४५ पद्मनिभक्षणः—कमलके समान कोमल दृष्टिवाले ॥

३४६ पद्मनाभः—कमलको अपनी नाभमें स्थित रखनेवाले, ३४७ अरविन्दाक्षः—कमलके समान आँखोंवाले, ३४८ पद्मगर्भः—हृदयकमलमें ध्यान करनेयोग्य, ३४९ शरीरभृत्—अन्नरूपसे सबके शरीरोंका भरण करनेवाले, ३५० महार्द्धिः—महान् विभूतिवाले, ३५१ ऋद्धः—सबमें बढ़े-चढ़े, ३५२ वृद्धात्मा—पुरातन आत्मवान्, ३५३ महाक्षः—विशाल नेत्रोंवाले, ३५४ गरुडध्वजः—गरुडके चिह्नसे युक्त ध्वजावाले ॥

३५५ अतुलः—तुलनारहित, ३५६ शरभः—शरीरोंको प्रत्यगात्मरूपसे प्रकाशित करनेवाले, ३५७ भीमः—जिससे पापियोंको भय हो ऐसे भयानक, ३५८ समयज्ञः—समभारूप यज्ञसे प्राप्त होनेवाले, ३५९ हविर्हरिः—यज्ञोंमें हविर्भागको और अपना स्मरण करनेवालोंके पापोंको हरण करनेवाले, ३६० सर्वलक्षणलक्षण्यः—समस्त लक्षणोंसे लक्षित होनेवाले, ३६१ लक्ष्मीवान्—अपने वक्षःस्थलमें लक्ष्मीजीको सदा वसानेवाले, ३६२ समितिञ्जयः—संग्रामविजयी ॥

३६३ विक्षरः—नाशरहित, ३६४ रोहितः—मत्स्यविशेषका स्वरूप धारण करके अवतार लेनेवाले, ३६५ मार्गः—परमानन्द-प्राप्तिके साधनस्वरूप, ३६६ हेतुः—संसारके निमित्त और उपादान कारण, ३६७ दामोदरः—यशोदाजीद्वारा रस्सीसे बँधे हुए उदरवाले, ३६८ सहः—भक्तजनोंके अपराधोंको सहन करनेवाले, ३६९ महीधरः—पर्वतरूपसे पृथ्वीको धारण करनेवाले, ३७० महाभागः—महान् भाग्यशाली, ३७१ वेगवान्—तीव्रगतिवाले, ३७२ अमिताशनः—सारे विश्वको भक्षण करनेवाले ॥

३७३ उद्भवः—जगत्की उत्पत्तिके उपादानकारण, ३७४ क्षोभणः—जगत्की उत्पत्तिके समय प्रकृति और पुरुषमें प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध करनेवाले, ३७५ देवः—

प्रकाशस्वरूप, ३७६ श्रीगर्भः—सम्पूर्ण ऐश्वर्यको अपने उदरगर्भमें रखनेवाले, ३७७ परमेश्वरः—सर्वश्रेष्ठ शासन करनेवाले, ३७८ करणम्—संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े साधन, ३७९ कारणम्—जगत्के उपादान और निमित्त-कारण, ३८० कर्ता—सब प्रकारसे स्वतन्त्र, ३८१ विकर्ता—विचित्र भुवनोंकी रचना करनेवाले, ३८२ गहनः—अपने विलक्षण स्वरूप, सामर्थ्य और लीलादिके कारण पहिचाने न जा सकनेवाले, ३८३ गुहः—मायासे अपने स्वरूपको ढक लेनेवाले ॥

३८४ व्यवसायः—ज्ञानमात्रस्वरूप, ३८५ व्यवस्थानः—लोकपालादिकोंको, समस्त जीवोंको, चारों वर्णाश्रमोंको एवं उनके धर्मोंको व्यवस्थापूर्वक रचनेवाले, ३८६ संस्थानः—प्रलयके सम्यक् स्थान, ३८७ स्थानदः—ध्रुवादि भक्तोंको स्थान देनेवाले, ३८८ ध्रुवः—अविनाशी, ३८९ परार्द्धिः—श्रेष्ठ विभूतिवाले, ३९० परमस्पष्टः—ज्ञानस्वरूप होनेसे परम स्पष्टरूप, अवतार-विग्रहमें सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होनेवाले, ३९१ तुष्टः—एकमात्र परमानन्दस्वरूप, ३९२ पुष्टः—सर्वत्र परिपूर्ण, ३९३ शुभक्षणः—दर्शनमात्रसे कल्याण करनेवाले ॥

३९४ रामः—योगीजनोंके रमण करनेके लिये नित्यानन्द-स्वरूप, ३९५ विरामः—प्रलयके समय प्राणियोंको अपनेमें विराम देनेवाले, ३९६ विरतः—रजोगुण तथा तमोगुणसे सर्वथा शून्य, ३९७ मार्गः—मुमुक्षुजनोंके अमर होनेके साधन-स्वरूप, ३९८ नेयः—उत्तम ज्ञानसे ग्रहण करनेयोग्य, ३९९ नयः—सबको नियममें रखनेवाले, ४०० अनयः—स्वतन्त्र, ४०१ वीरः—पराक्रमशाली, ४०२ शक्तिमतां श्रेष्ठः—शक्तिमानोंमें भी अतिशय शक्तिमान्, ४०३ धर्मः—श्रुति-स्मृतिरूप धर्म, ४०४ धर्मविदुत्तमः—समस्त धर्मवेत्ताओंमें उत्तम ॥

४०५ वैकुण्ठः—परमधाम स्वरूप, ४०६ पुरुषः—विश्व-रूप शरीरमें शयन करनेवाले, ४०७ प्राणः—प्राणवायुरूपसे चेषटा करनेवाले, ४०८ प्राणदः—सर्गके आदिमें प्राण प्रदान करनेवाले, ४०९ प्रणवः—ॐकारस्वरूप, ४१० पृथुः—विराट् रूपसे विस्तृत होनेवाले, ४११ हिरण्यगर्भः—ब्रह्मारूपसे प्रकट होनेवाले, ४१२ शत्रुघ्नः—शत्रुओंको मारनेवाले, ४१३ व्याप्तः—कारणरूपसे सब कार्योंको व्याप्त करनेवाले, ४१४ वायुः—पवनरूप, ४१५ अघोक्षजः—अपने स्वरूपसे क्षीण न होनेवाले ॥

४१६ ऋतुः—कालरूपसे लक्षित होनेवाले, ४१७ सुदर्शनः—भक्तोंको सुगमतासे ही दर्शन दे देनेवाले, ४१८

कालः-सबकी गणना करनेवाले, ४१९ परमेष्ठी-अपनी प्रकृष्ट महिमामें स्थित रहनेके स्वभाववाले, ४२० परिग्रहः-धारणाधिक्यके द्वारा सब ओरसे ग्रहण किये जानेवाले, ४२१ उग्रः-सूर्यादिके भी भयके कारण, ४२२ संबत्सरः-सम्पूर्ण भूतोंके वासस्थान, ४२३ वक्त्रः-सब कार्योंको बड़ी कुशलतासे करनेवाले, ४२४ विश्रामः-विश्रामकी इच्छावाले ममूधुओंको मोक्ष देनेवाले, ४२५ विश्रवदक्षिणः-बलिके यज्ञमें समस्त विश्रवकी दक्षिणारूपमें प्राप्त करनेवाले ॥

४२६ विस्तारः-समस्त लोकोंके विस्तारके कारण, ४२७ स्थारवस्थापुः-स्वयं स्थितिशील रहकर पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थोंकी अपनेमें स्थित रखनेवाले, ४२८ प्रमाणम्-ज्ञानस्वरूप होनेके कारण स्वयं प्रमाणरूप, ४२९ धीअधमध्यमः-संसारके अविनाशी कारण, ४३० अर्थः-सुखस्वरूप होनेके कारण सबके द्वारा प्रार्थनीय, ४३१ अनर्थः-पूर्णकाम होनेके कारण प्रयोजनरहित, ४३२ महाकीशः-बड़े खजानेवाले, ४३३ महामोगः-मुखरूप महान् भोगवाले, ४३४ महाधनः-यथार्थ और अतिसाय धनस्वरूप ॥

४३५ अनिर्विण्णः-उकताहृदरूप विकारसे रहित, ४३६ स्वविष्टः-विराट्रूपसे स्थित, ४३७ अम्-अजन्मा, ४३८ धर्मपुपः-धर्मके स्तम्भरूप, ४३९ महामखः-अपित किये हुए यज्ञोंको निर्वाणरूप महान् फलदायक बना देनेवाले, ४४० नक्षत्रनेमिः-समस्त नक्षत्रोंके केन्द्रस्वरूप, ४४१ तक्षत्री-चन्द्ररूप, ४४२ क्षमः-समस्त कार्योंमें समर्थ, ४४३ क्षामः-समस्त विकारोंके क्षीण हो जानेपर परमात्मभावसे स्थित, ४४४ समीहनः-मृष्टि आदिके लिये भलीभाँति चेष्टा करनेवाले ॥

४४५ यज्ञः-सर्वयज्ञस्वरूप, ४४६ इज्यः-पूजनीय, ४४७ महेश्यः-सबसे अधिक उपासनीय, ४४८ ऋतुः-पुप-संयुक्त यज्ञस्वरूप, ४४९ सद्रम्-सत्पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले, ४५० स्तां गतिः-सत्पुरुषोंके परम प्रापणीय स्थान, ४५१ सर्वधर्माः-समस्त प्राणियोंको और उनके कार्योंको देखनेवाले, ४५२ विमुक्तात्मा-सांसारिक बन्धनसे रहित आत्मस्वरूप, ४५३ सर्वज्ञः-सबको जाननेवाले, ४५४ ज्ञानमुत्तमम्-सर्वोत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप ॥

४५५ सुव्रतः-प्रणतपालनादि श्रेष्ठ व्रतोंवाले, ४५६ सुमुखः-सुन्दर और प्रसन्न मुखवाले, ४५७ सुक्ष्मः-अणुसे भी अणु, ४५८ सुधीयः-सुन्दर और गंभीर वाणी बोलनेवाले, ४५९ सुबद्धः-अपने भक्तोंको सब प्रकारसे सुख देनेवाले, ४६० सुहृत्-प्राणिमात्रपर अहेतुकी दया करनेवाले परम मित्र, ४६१ मनोहृत्-अपने रूपनावण्य और मयुर भाषणादिते

सबके मनको हरनेवाले, ४६२ जितकोशः-श्रोत्रपर विजय करनेवाले अर्थात् अपने साप अत्यन्त अनुचित व्यवहार करनेवाले पर भी क्रोध न करनेवाले, ४६३ शीरबाहुः-अत्यन्त पराक्रमशील मुजाओसे युक्त, ४६४ विदारणः-अधर्मियोंको नष्ट करनेवाले ॥

४६५ स्थापनः-प्रलयकालमें समस्त प्राणियोंको अज्ञान-निद्रामें धायन करानेवाले, ४६६ स्ववशः-स्वतन्त्र, ४६७ व्यापी-आकाशकी भाँति सर्वव्यापी, ४६८ नैकात्मा-प्रत्येक युगमें लोकोद्धारके लिये अनेक रूप धारण करनेवाले, ४६९ नैककर्मकृत्-अगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप तथा मित्र-मित्र अवतारोंमें मनोहर लीतारूप अनेक कर्म करनेवाले, ४७० वत्सरः-सबके निवासस्थान, ४७१ वत्सलः-भक्तोंके परम स्नेही, ४७२ वत्सी-वृत्तावतमें यष्टाँक पालन करनेवाले, ४७३ रत्नगर्भः-रत्नोंको अपने गर्भमें धारण करनेवाले समुद्ररूप, ४७४ धनेश्वरः-सब प्रकारके धनोंके स्वामी ॥

४७५ धर्मगुप-धर्मकी रक्षा करनेवाले, ४७६ धर्मकृत्-धर्मकी स्थापनाके लिये स्वयं धर्मका आवरण करनेवाले, ४७७ धर्मा-सम्पूर्ण धर्मोंके आधार, ४७८ सत्-सत्यस्वरूप, ४७९ असत्-स्थूल जगत्स्वरूप, ४८० धरम्-सर्वभूतमय, ४८१ अक्षरम्-अविनाशी, ४८२ अविज्ञाता-दीनत्र जीवात्माकी विज्ञाता कहते हैं, उनसे विलक्षण भगवान् विष्णु, ४८३ सहस्राक्षुः-हजारों किरणोंवाले सूर्यस्वरूप, ४८४ विद्योता-सबको अच्छी प्रकार धारण करनेवाले, ४८५ कृतसक्षणः-श्रीवत्स आदि चिह्नोंको धारण करनेवाले ॥

४८६ गमस्तिनेमिः-किरणोंके बीचमें सूर्यरूपसे स्थित, ४८७ सत्त्वस्वः-अन्तर्धर्मरूपसे समस्त प्राणियोंके अन्त-करणमें स्थित रहनेवाले, ४८८ सिहः-भक्त प्रह्लादके लिये नृसिंहरूप धारण करनेवाले, ४८९ भूतमहेश्वरः-सम्पूर्ण प्राणियोंके महान् ईश्वर, ४९० आदिदेवः-सबके आदि कारण और दिव्यस्वरूप, ४९१ महादेवः-ज्ञानयोग और ऐश्वर्य आदि महिमाओंसे युक्त, ४९२ देवेशः-समस्त देवोंके स्वामी, ४९३ देवमृदगुः-देवोंका विशेषरूपसे भरण-पीडण करनेवाले उनके परम गुरु ॥

४९४ उत्तरः-संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाले और सर्वश्रेष्ठ, ४९५ गोपतिः-गोपालरूपसे गायोंकी रक्षा करनेवाले, ४९६ गोप्ता-समस्त प्राणियोंका पालन और रक्षा करनेवाले, ४९७ ज्ञानगम्यः-ज्ञानके द्वारा जाननेमें आनेवाले, ४९८ पुरातनः-सदा एकरस रहनेवाले सबके आदि पुराणपुरुरूप, ४९९ शरीरभूतवृत्-शरीरके तन्मयक पञ्च-

भूतोंका प्राणरूपसे पालन करनेवाले, ५०० भोक्ता—निर-
तिदाय आनन्दपुञ्जको भोगनेवाले, ५०१ कपीन्द्रः—वंदरोंके
स्वामी श्रीराम, ५०२ भूरिदक्षिणः—श्रीरामादि अवतारोंमें
यज्ञ करते समय बहुत-सी दक्षिणा प्रदान करनेवाले ॥

५०३ सोमपः—यज्ञोंमें देवरूपसे और यजमानरूपसे
सोमरसका पान करनेवाले, ५०४ अमृतपः—समुद्रमन्यनसे
निकाला हुआ अमृत देवोंको पिलाकर स्वयं पीनेवाले, ५०५
सोमः—ओषधियोंका पोषण करनेवाले चन्द्रमारूप, ५०६
पुरजित्—बहुतोंपर विजय लाभ करनेवाले, ५०७ पुरसत्तमः—
विश्वरूप और अत्यन्त श्रेष्ठ, ५०८ विनयः—दुष्टोंको दण्ड
देनेवाले, ५०९ जयः—सबपर विजय प्राप्त करनेवाले, ५१०
सत्यसंधः—सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाले, ५११ दाशाहंः—
दाशाहंकुलमें प्रकट होनेवाले, ५१२ सात्वतां पतिः—यादवोंके
और अपने भक्तोंके स्वामी यानी उनका योगक्षेम
चलानेवाले ॥

५१३ जीवः—क्षेत्रज्ञरूपसे प्राणोंको धारण करनेवाले,
५१४ विनयितासाक्षी—अपने धारणापन्न भक्तोंके विनय-
भावको तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले, ५१५ मुकुन्वः—
मृन्निदाता, ५१६ अभित्तयिक्रमः—अपारपरक्रामी, ५१७
अम्मोनिधिः—जलके निधान समुद्रस्वरूप, ५१८ अनन्तात्मा—
अनन्तमूर्ति, ५१९ महोदधिधायः—प्रलयकालके महान् समुद्र-
में प्रयन करनेवाले, ५२० अन्तकः—प्राणियोंका संहार करने-
वाले मृत्युस्वरूप ॥

५२१ अजः—जन्मविकाररहित, ५२२ महार्हः—पूजनीय,
५२३ स्वामाध्यः—नित्य सिद्ध होनेके कारण स्वभावसे ही न
उत्पन्न होनेवाले, ५२४ जितामित्रः—रावण-शिशुपालादि
द्यूषोंको जीतनेवाले, ५२५ प्रमोदनः—स्मरणमात्रसे नित्य
प्रमुदित करनेवाले, ५२६ आनन्दः—आनन्दस्वरूप, ५२७
नन्दनः—सबको प्रसन्न करनेवाले, ५२८ नन्वः—सम्पूर्ण ऐश्वर्यों-
में सम्पन्न, ५२९ सत्यधर्मा—धर्मज्ञानादि सब गुणोंसे युक्त,
५३० त्रिविधः—तीन उगमें तीनों लोकोंको नापनेवाले ॥

५३१ महार्थिः कपिलाचार्यः—सांख्यशास्त्रके प्रणेता
भगवान् कपिलाचार्य, ५३२ कृतज्ञः—किये हुएको जाननेवाले
गान्धी अपने भक्तोंकी सेवाको बहुत मानकर अपनेको उनका
शृणी समझनेवाले, ५३३ मेदिनीपतिः—पृथ्वीके स्वामी,
५३४ त्रिपदः—त्रिलोकीरूप तीन पैरोंवाले विश्वरूप, ५३५
त्रिदशाध्यक्षः—देवताओंके स्वामी, ५३६ महाभृङ्गः—मत्स्या-
वतारमें महान् सींग धारण करनेवाले, ५३७ कृतान्तकृत्—
गमरण करनेवालोंके समस्त कर्मोंका अन्त करनेवाले ॥

५३८ महाधराहः—हिरण्पाक्षका वध करनेके लिये

महाधराह्रूप धारण करनेवाले, ५३९ गोविन्दः—वेदवाणीसे
जाननेमें आनेवाले, ५४० सुषेणः—पार्यदोंके समुदायरूप
सुन्दर सेनासे सुसज्जित, ५४१ कनकाङ्गदी—सुवर्णका वाजू-
वन्द धारण करनेवाले, ५४२ गुह्यः—हृदयाकाशमें छिपे
रहनेवाले, ५४३ गभीरः—अतिशय गम्भीर स्वभाववाले,
५४४ गहनः—जिनके स्वरूपमें प्रविष्ट होना अत्यन्त कठिन
हो—ऐसे, ५४५ गुप्तः—वाणी और मनसे जाननेमें न
आनेवाले, ५४६ चक्रगदाधरः—भक्तोंकी रक्षाके लिये चक्र
और गदा आदि दिव्य आयुधोंको धारण करनेवाले ॥

५४७ वेधाः—सब कुछ विधान करनेवाले, ५४८ स्वाङ्गः—
कार्य करनेमें स्वयं ही सहकारी, ५४९ अजितः—किसीके द्वारा
न जीते जानेवाले, ५५० कृष्णः—श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, ५५१
वृद्धः—अपने स्वरूप और सामर्थ्यसे कभी भी च्युत न होनेवाले,
५५२ संकर्षणोऽच्युतः—प्रलयकालमें एक साथ सबका
संहार करनेवाले और जिनका कभी किसी भी कारणसे पतन
न हो सके—ऐसे अविनाशी, ५५३ वरुणः—जलके स्वामी
वरुणदेवता, ५५४ वारुणः—वरुणके पुत्र वसिष्ठस्वरूप,
५५५ वृक्षः—अद्वैतव्यवधारूप, ५५६ पुष्कराक्षः—कमलनयन,
५५७ महामनाः—संकल्पमात्रसे उत्पत्ति, पालन और संहार
आदि समस्त लीला करनेकी शक्तिवाले ॥

५५८ भगवान्—उत्पत्ति और प्रलय, आना और जाना
तथा विद्या और अविद्याको जाननेवाले एवं सर्वैश्वर्यादि
छहों भागोंसे युक्त, ५५९ भगहा—अपने भक्तोंका प्रेम बढ़ानेके
लिये उनके ऐश्वर्यका हरण करनेवाले और प्रलयकालमें
सबके ऐश्वर्यको नष्ट करनेवाले, ५६० आनन्वी—परमसुख-
स्वरूप, ५६१ वनमाली—वैजयन्ती वनमाला धारण करनेवाले,
५६२ हलायुधः—हलरूप शस्त्रको धारण करनेवाले बलभद्र-
स्वरूप, ५६३ आदित्यः—अदितिपुत्र वामन भगवान्, ५६४
ज्योतिरादित्यः—सूर्यमण्डलमें विराजमान ज्योतिःस्वरूप,
५६५ सहिष्णुः—समस्त द्रव्योंको सहन करनेमें समर्थ, ५६६
गतिसत्तमः—सत्पुरुषोंके परम गन्तव्य और सर्वश्रेष्ठ ॥

५६७ सुधन्वा—अतिशय सुन्दर शाङ्गधनुष धारण
करनेवाले, ५६८ खण्डपरशुः—शत्रुओंका खण्डन करनेवाले
फरसेको धारण करनेवाले परशुरामस्वरूप, ५६९ दारुणः—
सन्मार्गविरोधियोंके लिये महान् भयकर, ५७० द्रविणप्रदः—
अर्थार्थी भक्तोंको धन-सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, ५७१
दिवःस्पृक्—स्वर्गलोकतक व्याप्त, ५७२ सर्वदाग्घासः—
सबके द्रष्टा एवं वेदका विभाग करनेवाले श्रीकृष्ण-द्वैपायन-
स्वरूप, ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः—विद्याके स्वामी तथा विना
योंनिके स्वयं ही प्रकट होनेवाले ॥

५७४ त्रिसामा-देवव्रत आदि तीन साम-श्रुतियोंद्वारा जिनकी स्तुति की जाती है-ऐसे परमेश्वर, ५७५ सामगः-सामवेदका गान करनेवाले, ५७६ साम-सामवेदस्वरूप, ५७७ निर्वाणम्-परम शान्तिके निधान परमानन्दस्वरूप, ५७८ भेषजम्-संसाररोगकी औषध, ५७९ मिषह्-संसार रोगका नाश करनेके लिये गीतारूप उपदेशामृतका पान करानेवाले-परमवैद्य, ५८० संन्यासकृत-मोक्षके लिये संन्यासाश्रम और संन्यास-योगका निर्माण करनेवाले, ५८१ शमः-उपशमताका उपदेश देनेवाले, ५८२ शान्तः-परम-शान्ताकृति, ५८३ निष्ठा-सबकी स्थितिके आधार अधि-ष्ठानस्वरूप, ५८४ शान्तिः-परम शान्तिस्वरूप, ५८५ परायणम्-मुमुक्षु पुष्टियोंके परम प्राप्यस्थान ॥

५८६ शुभाङ्गः-अति मनोहर परम सुन्दर अङ्गोवाले, ५८७ शान्तिदः-परम शान्ति देनेवाले, ५८८ स्रष्टा-सर्पके आदिमें सबकी रचना करनेवाले, ५८९ कुम्भुदः-पृथ्वीको प्रसन्न करनेवाले, ५९० कुवलिनाथः-जलमें शीतनागकी शय्यापर शयन करनेवाले, ५९१ गौहितः-गोपालरूपसे गायिका और अवतार धारण करके भार उतारकर पृथ्वीका हित करनेवाले, ५९२ गोपतिः-पृथ्वीके ओर गायिके स्वामी, ५९३ गोप्ता-अवतार धारण करके सबके सम्मुख प्रकट होते समय अपनी मायामें अपने स्वरूपको आच्छादित करनेवाले, ५९४ वृषभासः-समस्त कामनाओंकी वर्षा करनेवाली कृपादृष्टिसे युक्त, ५९५ वृषप्रियः-धर्मसे प्यार करनेवाले ॥

५९६ अनिवर्ती-रणभूमिमें और घर्मपालनमें पीछे न हटनेवाले, ५९७ निवृत्तात्मा-स्वभावमें ही विषय-वासनारहित नित्य दुःख भनवाले, ५९८ संक्षेप्ता-विस्तृत जगत्को क्षणभरमें संक्षिप्त यानी मूढमपमें करनेवाले, ५९९ क्षेमकृत-शरणागतको रक्षा करनेवाले, ६०० शिकः-स्मरणमात्रसे पवित्र करनेवाले कल्याणस्वरूप, ६०१ श्री-वस्तवसः-श्रीवस्तु नामक चिह्नको वक्षःस्थलमें धारण करनेवाले, ६०२ श्रीवासः-श्रीलक्ष्मीजीके वासस्थान, ६०३ श्रीपतिः-परमशक्तिरूपा श्रीलक्ष्मीजीके स्वामी, ६०४ धीमतां वरः-सब प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्वर्यसे युक्त ब्रह्मादि समस्त लोकपालसे श्रेष्ठ ॥

६०५ श्रीदः-भक्तोंको श्री प्रदान करनेवाले, ६०६ श्रीशः-लक्ष्मीके नाथ, ६०७ श्रीनिवासः-श्रीलक्ष्मीजीके अन्तःकरणमें नित्य निवास करनेवाले, ६०८ श्रीनिधिः-समस्त धियोंके आधार, ६०९ श्रीविभावनः-सब मनुष्योंके लिये उनके कर्मानुसार नाना प्रकारके ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले, ६१० श्रीघरः-जगज्जननी श्रीकी वक्षःस्थलमें धारण

करनेवाले, ६११ श्रीकरः-स्मरण, स्तवन और अर्चन आदि करनेवाले भक्तोंके लिये श्रीका विस्तार करनेवाले, ६१२ श्रेयः-कल्याणस्वरूप, ६१३ श्रीमान्-सब प्रकारकी धियोंमें युक्त, ६१४ लोकत्रयाध्यः-तीनों लोकोंके आधार ॥

६१५ स्वसः-मनोहर कृपाकटाक्षसे युक्त परम सुन्दर आँखोवाले, ६१६ स्वङ्गः-अतिशय कोमल परम सुन्दर मनोहर अङ्गोवाले, ६१७ शतानन्दः-जीताभेदसे सब ठो विभागोंमें विभक्त आनन्दस्वरूप, ६१८ नन्दी-परमानन्द-विग्रह, ६१९ ज्योतिर्गणेश्वरः-नक्षत्रममृदायोंके ईश्वर, ६२० विजितात्मा-जीते हुए मनवाले, ६२१ अधिधेयात्मा-जिनके असली स्वरूपका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके-ऐसे अनिर्वचनीयस्वरूप, ६२२ सत्कीर्तिः-सबकी कीर्तिवाले, ६२३ छिन्नसंशयः-हृदयलीमें रखे हुए बैरके समान सम्पूर्ण विश्वको प्रत्यक्ष देखनेवाले होनेसे सब प्रकारके सगयोंसे रहित ॥

६२४ उदीर्णः-सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ, ६२५ सर्वतत्रचक्षुः-समस्त वस्तुओंको सब दिशाओंमें सदा-भर्वादा देखनेकी शक्तिवाले, ६२६ अनीशः-जिनका दृग्गण कोई शामक न हो-ऐसे स्वतन्त्र, ६२७ शाश्वतेश्वरः-सदा एकरस स्थिर रहनेवाले निर्विकार, ६२८ भूमायः-लंकागमनके लिये मार्गकी यात्रना करने भयम समुद्रतटकी भूमिपर शयन करनेवाले, ६२९ भूधरः-स्वेच्छासे नाना अवतार लेकर अपने चरण-चिह्नसे भूमिकी शोभा बढ़ानेवाले, ६३० भूक्तिः-सत्तास्वरूप और समस्त विभूतियोंके आधारस्वरूप, ६३१ विशोकः-सब प्रकारसे शोकरहित, ६३२ शोकनाशनः-स्मृतिमात्रमें भक्तोंके शोकका मूल नाश करनेवाले ॥

६३३ अविष्मान्-चन्द्र-सूर्य आदि समस्त ज्योतिषांशों देवीप्यमान करनेवाली अतिशय प्रकारामय अनन्त किरणोंमें युक्त, ६३४ अचितः-ममस्त लोकोंके पूज्य ब्रह्मादिमें भी पूजे जानेवाले, ६३५ कुम्भः-घटकी भाँति सबके नियामस्थान, ६३६ विशुद्धात्मा-परम शुद्ध निर्मल आत्मस्वरूप, ६३७ विशोद्यतः-स्मरणमात्रसे ममस्त पापोंका नाश करके भक्तोंके अन्तःकरणको परम शुद्ध कर देनेवाले, ६३८ अनिरुद्धः-जिनको कोई बाधकर नहीं रख सके-ऐसे बनु-व्यूहमें अनिरुद्धस्वरूप, ६३९ अत्रिपरमः-अत्रिपरमसे रहित, ६४० प्रद्युम्नः-परमश्रेष्ठ अपार धनमें युक्त चतुर्भूहमें प्रद्युम्नस्वरूप, ६४१ अमितयिक्रमः-अपार पराक्रमी ॥

६४२ कालनेमिनिहा-कालनेमि नामक ब्रह्मरूपी भानेवाले, ६४३ कौरः-परम पुरबीर, ६४४ नीतिः-न्याय-कुलमें उत्पन्न होनेवाले श्रीहृण्यस्वरूप, ६४५ शूजनेश्वरः-

इन्द्रादि शूरवीरोंके भी अतिशय शूरवीरताके कारण इष्ट, ६४६ त्रिलोकात्मा—अन्तर्यामीरूपसे तीनों लोकोंके आत्मा, ६४७ त्रिलोकेशः—तीनों लोकोंके स्वामी, ६४८ केशवः—सूर्यकी किरणरूप केशवाले, ६४९ केशिहा—केशी नामके अमुरको मारनेवाले, ६५० हरिः—स्मरणमात्रसे समस्त पापोंका और समूल संसारका हरण करनेवाले ॥

६५१ कामदेवः—वर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको चाहनेवाले मनुष्योंद्वारा अभिलषित समस्त कामनाओंके अविच्छाता परमदेव, ६५२ कामपालः—सकामी भक्तोंकी कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले, ६५३ कामी—स्वभावे ही पूर्णकाम और अपने प्रियतमोंको चाहनेवाले, ६५४ कान्तः—परम मनोहर श्यामसुन्दर देह धारण करनेवाले गोपीजनवल्लभ, ६५५ कृतागमः—समस्त शास्त्रोंको रचनेवाले, ६५६ अनिर्देश्यवपुः—जिनके दिव्य स्वरूपका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके—ऐसे अनिर्वचनीय शरीरवाले, ६५७ विष्णुः—शेषशायी भगवान् विष्णु, ६५८ वीरः—विना ही पैरोंके गमन करने आदि अनेक दिव्य शक्तियोंसे युक्त, ६५९ अनन्तः—जिनके स्वरूप, शक्ति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य और गुणोंका कोई भी पार नहीं पा सकता—ऐसे अविनाशी गुण, प्रभाव और शक्तियोंसे युक्त, ६६० धनञ्जयः—अर्जुनरूपसे दिग्विजयके समय बहुत-सा धन जीतकर लानेवाले ॥

६६१ ब्रह्मण्यः—तप, वेद, ब्राह्मण और ज्ञानकी रक्षा करनेवाले, ६६२ ब्रह्मकृत्—पूर्वोक्त तप आदिकी रचनावाले, ६६३ ब्रह्मा—ब्रह्मरूपसे जगत्को उत्पन्न करनेवाले, ६६४ ब्रह्म—सच्चिदानन्दस्वरूप, ६६५ ब्रह्मविधर्षणः—पूर्वोक्त ब्रह्मशब्दवाची तप आदिकी वृद्धि करनेवाले, ६६६ ब्रह्मवित्—वेद और वेदार्थको पूर्णतया जाननेवाले, ६६७ ब्राह्मणः—समस्त वस्तुओंको ब्रह्मरूपसे देखनेवाले, ६६८ ब्रह्मी—ब्रह्मशब्दवाची तपादि समस्त पदार्थोंके अधिष्ठान, ६६९ ब्रह्मज्ञः—अपने आत्मस्वरूप ब्रह्मशब्दवाची वेदको पूर्णतया यथाथं जाननेवाले, ६७० ब्राह्मणप्रियः—ब्राह्मणोंके परम प्रिय और ब्राह्मणोंको अतिशय प्रिय माननेवाले ॥

६७१ महाक्रमः—बड़े वेगसे चलनेवाले, ६७२ महाकर्मा—भिन्न-भिन्न अवतारोंमें नाना प्रकारके महान् कर्म करनेवाले, ६७३ महातेजाः—जिसके तेजसे समस्त तेजस्वी देदीप्यमान होते हैं—ऐसे महान् तेजस्वी, ६७४ महोरगः—बड़े भारी सर्प यानी वासुकिस्वरूप, ६७५ महाक्रतुः—महान् यज्ञस्वरूप, ६७६ महायज्वा—बड़े यजमान यानी लोकसंग्रहके लिये बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले, ६७७ महायज्ञः—जपयज्ञ आदि भगवत्प्राप्तिके साधनरूप समस्त यज्ञ जिनकी

विभूतियाँ हैं—ऐसे महान् यज्ञस्वरूप, ६७८ महाहविः—ब्रह्मरूप अग्निमें हवन किये जाने योग्य प्रपञ्चरूप हवि जिनका स्वरूप है—ऐसे महान् हविःस्वरूप ॥

६७९ स्तव्यः—सबके द्वारा स्तुति किये जाने योग्य, ६८० स्तवप्रियः—स्तुतिसे प्रसन्न होनेवाले, ६८१ स्तोत्रम्—जिसके द्वारा भगवान्के गुण-प्रभावका कीर्तन किया जाता है, वह स्तोत्र, ६८२ स्तुतिः—स्तवनक्रियास्वरूप, ६८३ स्तोता—स्तुति करनेवाले, ६८४ रणप्रियः—युद्धसे प्रेम करनेवाले, ६८५ पूर्णः—समस्त ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य और गुणोंसे परिपूर्ण, ६८६ पूरयिता—अपने भक्तोंको सब प्रकारसे परिपूर्ण करनेवाले, ६८७ पुण्यः—स्मरणमात्रसे पापोंका नाश करनेवाले पुण्यस्वरूप, ६८८ पुण्यकीर्तिः—परमपावन कीर्तिवाले, ६८९ अनामयः—आन्तरिक और बाह्य सब प्रकारकी व्याधियोंसे रहित ॥

६९० मनोजवः—मनकी भाँति वेगवाले, ६९१ तीर्थकरः—समस्त विद्याओंके रचयिता और उपदेशकर्ता, ६९२ वसुरेताः—हिरण्यमय पुरुष (प्रथम पुरुष-सृष्टिका बीज) जिनका वीर्य है—ऐसे सुवर्णवीर्य, ६९३ वसुप्रदः—प्रचुर धन प्रदान करनेवाले, ६९४ वसुप्रदः—अपने भक्तोंको मोक्षरूप महान् धन देनेवाले, ६९५ वासुदेवः—वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण, ६९६ वसुः—समस्त प्राणियोंके वासस्थान और सबके अन्तःकरणमें निवास करनेवाले, ६९७ वसुमनाः—समानभावसे सबमें निवास करनेकी शक्तियुक्त मनवाले, ६९८ हविः—यज्ञमें हवन किये जाने योग्य हविःस्वरूप ॥

६९९ सद्गतिः—सत्पुरुषोंद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य गतिस्वरूप, ७०० सत्कृतिः—जगत्की रक्षा आदि सत्कार्य करनेवाले, ७०१ सत्ता—सदा-सर्वदा विद्यमान सत्तास्वरूप, ७०२ सद्भूतिः—बहुत प्रकारसे बहुत रूपोंमें भासित होनेवाले, ७०३ सत्परायणः—सत्पुरुषोंके परम प्रापणीय स्थान, ७०४ शूरसेनः—हनुमानादि श्रेष्ठ शूरवीर योधाओंसे युक्त सेनावाले, ७०५ यदुश्रेष्ठः—यदुवंशियोंमें सर्वश्रेष्ठ, ७०६ सन्निवासः—सत्पुरुषोंके आश्रय, ७०७ सुयामुनः—जिनके परिकर यमुना-तटनिवासी गोपालवाल आदि अति सुन्दर हैं, ऐसे श्रीकृष्ण ॥

७०८ सूतावासः—समस्त प्राणियोंके मुख्य निवासस्थान, ७०९ वासुदेवः—अपनी मायासे जगत्को आच्छादित करनेवाले परम देव, ७१० सर्वामुनिलयः—समस्त प्राणियोंके आधार, ७११ अनलः—अपार शक्ति और सम्पत्तिसे युक्त, ७१२ वर्षहा—धर्मविरुद्ध मार्गमें चलनेवालोंके घमण्डको नष्ट करनेवाले, ७१३ वर्षदः—अपने भक्तोंको विसृष्ट गौरव देनेवाले, ७१४ वृप्तः—नित्यानन्दमग्न, ७१५ दुर्धरः—बड़ी कठिनतारः

हृदयमें धारित होनेवाले, ७१६ अपराजितः—किसी प्रकार भी जीतनेमें न आनेवाले ॥

७१७ विश्वमूर्तिः—समस्त विश्व ही जिनकी मूर्ति है—
ऐसे विराट्स्वरूप, ७१८ महामूर्तिः—बड़े रूपवाले, ७१९
दीप्तमूर्तिः—स्वेच्छासे धारण किये हुए देदीप्यमान स्वरूपसे
युक्त, ७२० अमूर्तिमान्—जिनकी कोई मूर्ति नहीं—ऐसे
निराकार, ७२१ अनेकमूर्तिः—नाना अवतारोंमें स्वेच्छासे
लोगोंका उपकार करनेके लिये बहूत मूर्तियोंको धारण करने-
वाले, ७२२ अव्यक्तः—अनेक मूर्ति होते हुए भी जिनका
स्वरूप किसी प्रकार व्यक्त न किया जा सके—ऐसे अप्रकट-
स्वरूप, ७२३ शतमूर्तिः—सैंकड़ों मूर्तियोंवाले, ७२४ शता-
ननः—सैंकड़ों मुखोंवाले ॥

७२५ एकः—सब प्रकारके भेदभावोंसे रहित अद्वितीय,
७२६ नैकः—उपाधिभेदसे अनेक, ७२७ सवः—जिसमें सोम-
नामकी ओपधिका रस निकाला जाता है—ऐसे यज्ञस्वरूप,
७२८ कः—सुखस्वरूप, ७२९ किम्—विचारणीय ब्रह्मस्वरूप,
७३० यत्—स्वतःसिद्ध, ७३१ तत्—विस्तार करनेवाले,
७३२ पवमनुत्तमम्—मुमुक्षु पुरुषोंद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य
अत्युत्तम परमपद, ७३३ लोकबन्धुः—समस्त प्राणियोंके हित
करनेवाले परम मित्र, ७३४ लोकनाथः—सबके द्वारा धारणा
किये जानेयोग्य लोकस्वामी, ७३५ माघघ्नः—मधुकुलमें उत्पन्न
होनेवाले, ७३६ भवतवत्सलः—भक्तोंसे प्रेम करनेवाले ॥

७३७ सुवर्णवर्णः—सोनेके समान पीतवर्णवाले, ७३८
हेमाङ्गः—सोनेके समान सुहोत चमकीले अङ्गोंवाले, ७३९
वराङ्गः—परम श्रेष्ठ अङ्ग-प्रत्यङ्गोंवाले, ७४० चन्द्रमाङ्गो-
चन्दनके लेंप और बाजूबन्दसे सुशोभित, ७४१ चौरहा-
धर्मकी रक्षाके लिये असुरवीर्योंको मारनेवाले, ७४२ विषमः—
जिनके समान दूसरा कोई नहीं—ऐसे अनुपम, ७४३ शून्यः—
समस्त विशेषणोंसे रहित, ७४४ घृतासीः—अपने आश्रित
जनोंके लिये कृपासे सने हुए द्रवित सकल्प करनेवाले, ७४५
अचलतः—किसी प्रकार भी विचलित न होनेवाले अविचल,
७४६ घतः—वायुरूपसे सर्वत्र गमन करनेवाले ॥

७४७ अमानि—स्वयं मान न चाहनेवाले अभिमानरहित,
७४८ मानवः—दूतारोंको मान देनेवाले, ७४९ मान्यः—सबके
पूजनेयोग्य माननीय, ७५० लोकस्वामी—बौद्ध भुवनोंके
स्वामी, ७५१ त्रिलोकघृक्—तीनों लोकोंको धारण करनेवाले,
७५२ मुनेघाः—अति उत्तम सुन्दर बुद्धिवाले, ७५३ मेघजः—
यज्ञमें प्रकट होनेवाले, ७५४ धन्यः—नित्य कृतकृत्य होनेके
कारण सर्वथा धन्यवादके पात्र, ७५५ सत्यमेघाः—सच्ची और
मं ० मां०—१८८

श्रेष्ठ बुद्धिवाले, ७५६ धराधरः—अनन्त भगवान्के रूपसे
पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥

७५७ तेजोबुधः—आदित्यरूपसे तेजकी वर्षा करनेवाले
और भक्तोंपर अपने अमृतमय तेजकी वर्षा करनेवाले, ७५८
द्युतिधरः—परम कान्तिको धारण करनेवाले, ७५९ सर्वशस्त्र-
मूर्तां धरः—समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ, ७६० प्रप्रहूः—भक्तोंके
द्वारा अर्पित पत्र-मुष्पादिको ग्रहण करनेवाले, ७६१ निप्रहूः—
सबका निग्रह करनेवाले, ७६२ व्यधः—अपने भक्तोंको अमीष्ट
फल देनेमें लगे हुए, ७६३ नैर्ऋतः—नाम, आख्यात,
उपसर्ग और निपातरूप चार सीगोंको धारण करनेवाले शब्द-
ब्रह्मस्वरूप, ७६४ गदाप्रजः—मदसे पहले जन्म लेनेवाले ॥

७६५ चतुर्भुजः—राम, लक्ष्मण, भरत, सपुत्ररूप चार
मूर्तियोंवाले, ७६६ चतुर्बाहुः—चार भुजाओंवाले, ७६७
चतुर्व्यूहः—चातुर्देव, संकषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—इन
चार व्यूहोंसे युक्त, ७६८ चतुर्गतिः—सालोक्य, सामीप्य,
सारूप्य, सायुज्यरूप चार परम गतिस्वरूप, ७६९ चतुराल्मा-
मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तरूप चार अन्तःकरणवाले, ७७०
चतुर्मावः—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंके
उत्पत्तिस्थान, ७७१ चतुर्बन्धित्—चारों वेदोंके अर्थको
भलीभांति जाननेवाले, ७७२ एकापात्—एक पादवाले यानी
एक पाद (अंश) से समस्त विश्वको व्याप्त करनेवाले ॥

७७३ समावर्तः—संसारचक्रको भलीभांति घुमानेवाले,
७७४ नियन्तात्मा—स्वभावसे ही विषय-वासनारहित मनवाले,
७७५ दुर्जयः—किसीसे भी जीतनेमें न आनेवाले, ७७६
दुरतिक्रमः—जिनकी आज्ञाका कोई उल्लङ्घन नहीं कर सके
ऐसे, ७७७ दुर्लभः—बिना भक्तिके प्राप्त न होनेवाले, ७७८
दुर्गमः—कठिनतासे जाननेमें आनेवाले, ७७९ दुर्गः—कठिनतासे
प्राप्त होनेवाले, ७८० दुरावासः—बड़ी कठिनतासे योगीश्वरी-
द्वारा हृदयमें बसाये जानेवाले, ७८१ दुरारिहा—दुष्ट मार्गमें
चलनेवाले दैत्योंका वध करनेवाले ॥

७८२ शुभाङ्गः—सुन्दर अङ्ग-प्रत्यङ्गोंवाले, ७८३ लोक-
सारङ्गः—लोकोंके सारको ग्रहण करनेवाले, ७८४ सुतन्तु-
सुन्दर विस्तृत जगत्स्वरूप तन्तुवाले, ७८५ तन्तुवर्धनः—
पूर्वोक्त जगत्-तन्तुको बढ़ानेवाले, ७८६ इन्द्रकर्म—इन्द्रके
समान कर्मवाले, ७८७ महाकर्म—बड़े-बड़े कर्म करनेवाले,
७८८ कृतकर्म—जो समस्त कर्तव्यकर्म कर चुके हो, जिनका
कोई कर्तव्य शेष न रहा हो—ऐसे कृतकृत्य, ७८९ कृतात्मनः—
आगमरूप वेदोंको बानेवाले ॥

७९० उद्भवकः—स्वेच्छासे श्रेष्ठ जन्म धारण करनेवाले,
७९१ सुन्दरः—सबसे अधिक भाग्यशाली होनेके कारण परम

मुन्दर, ७१२ मुन्दः—नरद कल्पयाशील, ७१३ रत्ननामः—
रत्नके समान मुन्दर नानिवाले, ७१४ सुलोचनः—मुन्दर
नेत्रोंवाले, ७१५ अर्कः—ब्रह्मादि पूज्य पुरुषोंके भी पूजनीय,
७१६ वाजसनः—याचकोंको अन्न प्रदान करनेवाले, ७१७
शुद्धी—प्रलयकालमें सौम्ययुक्त मत्स्यविशेषका रूप धारण
करनेवाले, ७१८ जयन्तः—शत्रुओंको पूर्णतया जीतनेवाले,
७१९ सर्वविजयी—सर्वत्र यानी सब कुछ जाननेवाले और
सबको जीतनेवाले ॥

८०० सुवर्णबिन्दुः—मुन्दर अक्षर और बिन्दुसे युक्त
ओंकारस्वरूप नाम ब्रह्म, ८०१ असौम्यः—किमीके द्वारा
भी क्षुभित न किये जा सकनेवाले, ८०२ सर्ववागीश्वरेश्वरः—
समस्त वागीशितियोंके यानी ब्रह्मादिके भी स्वामी, ८०३
महाहृदः—ध्यान करनेवाले जिनमें गीता लगाकर आनन्दमें
मग्न होते हैं, ऐसे परमानन्दके महान् सरोवर, ८०४ महागर्तः—
मायात्मक महान् गर्तवाले, ८०५ महामृतः—विकालमें कभी न
नष्ट होनेवाले महानुत्स्वरूप, ८०६ महानिधिः—सबके
महान् निवासस्थान ॥

८०७ कुमुदः—कु अर्थात् पृथ्वीको उसका भार उतार-
कर प्रसन्न करनेवाले, ८०८ कुन्दरः—हिरण्यजको मारनेके
लिये पृथ्वीको विदीर्ण करनेवाले, ८०९ कुन्दः—कश्यपजीको
पृथ्वी प्रदान करनेवाले, ८१० पर्यन्तः—त्रादलकी नाति
समस्त इष्ट वस्तुओंकी दर्शा करनेवाले, ८११ पावनः—स्मरण-
भावसे पवित्र करनेवाले, ८१२ अनिलः—सदा प्रबुद्ध रहने-
वाले, ८१३ अमृतासः—जिनकी आज्ञा कभी विफल न हो—
ऐसे अमोघफलकल्प ८१४ अमृतवपुः—जिनकी देह कभी नष्ट
न हो—ऐसे नित्य-विग्रह, ८१५ सर्वैशः—सदा-सर्वदा सब कुछ
जाननेवाले, ८१६ सर्वतोमुखः—सब ओर मुखवाले यानी जहाँ
कहीं भी उनके मन्त्र भक्तिपूर्वक पत्र-गुण्यादि जो कुछ भी
कर्तव्य करें, उसे नज्जण करनेवाले ॥

८१७ मुलमः—नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवालेको
और एकनिष्ठ अद्वानु भक्तको विना ही परिश्रमके सुगमतासे
प्राप्त होनेवाले, ८१८ मुषतः—मुन्दर भोजन करनेवाले यानी
अपने भक्तोंद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पण किये हुए पत्र-गुण्यादि
मानुषों भोजनका भी परम श्रेष्ठ मानकर खानेवाले, ८१९
सिद्धः—स्वभावसे ही समस्त सिद्धियोंमें युक्त, ८२० शत्रुजित्-
देवता और सत्पुरुषोंके शत्रुओंको अपने शत्रु मानकर जीतने-
वाले, ८२१ गद्गतापनः—शत्रुओंको तपानेवाले, ८२२
न्यग्रोधः—बटवृक्षरूप, ८२३ उदुम्बरः—कारणरूपसे आकाशके
भी ऊपर रहनेवाले, ८२४ अरवत्यः—वीपन-वृक्षस्वरूप,
८२५ चाभूरान्ध्रनिघ्नः—चाभूर नामक अग्निजतिके वीर
मन्दको मारनेवाले ॥

८२६ ब्रह्माचिः—अनन्त-किरणोंवाले, ८२७ सप्त-
जिह्वः—काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, वृषभवर्णा,
स्फुटिजिह्वी और विश्वरुचि—इन सात जिह्वावाले अग्नि-
स्वरूप, ८२८ सप्तैशः—सात दीप्तिवाले अग्निस्वरूप, ८२९
सप्तबाहनः—सात घोड़ोंवाले सूर्यरूप, ८३० अमूर्तिः—मूर्ति-
रहित निराकार, ८३१ अन्धः—सब प्रकारसे निष्पाप, ८३२
अचिन्त्यः—किमी प्रकार भी चिन्तन करनेमें न आनेवाले,
८३३ भयङ्गुः—दुष्टोंको भयभीत करनेवाले, ८३४ भय-
नाशनः—स्मरण करनेवालोंके और सत्पुरुषोंके भयका नाश
करनेवाले ॥

८३५ अणुः—अत्यन्त सूक्ष्म, ८३६ बृहत्—सबसे बड़े,
८३७ कृशः—अत्यन्त पतले और हलके, ८३८ स्थूलः—अत्यन्त
मोटे और भारी, ८३९ गुणभृत्—समस्त गुणोंको धारण
करनेवाले, ८४० निर्गुणः—सत्त्व, रज और तम—इन तीनों
गुणोंसे रहित, ८४१ महान्—गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और ज्ञान
आदिकी अतिशयताके कारण परम महत्त्वसम्पन्न, ८४२
अघृतः—जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता—ऐसे निरा-
धार, ८४३ स्वघृतः—अपने-आपसे धारित यानी अपनी ही
महिमामें स्थित, ८४४ स्वास्थः—मुन्दर मुखवाले, ८४५
प्रावंगः—जिनसे समस्त वंशपरम्परा आरम्भ हुई है—ऐसे
समस्त पूर्वजोंके भी पूर्वज आदि पुरुष, ८४६ वंशवर्धनः—
जगत-प्रपञ्चरूप वंशको और यादव-वंशको बढ़ानेवाले ॥

८४७ भारभृत्—शेषनाग आदिके रूपमें पृथ्वीका भार
उठानेवाले और अपने भक्तोंके योगक्षेमरूप भारको वहन
करनेवाले, ८४८ क्षयितः—वेद-शास्त्र और महापुरुषोंद्वारा
जिनके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूपका बारंबार कथन
किया गया है, ऐसे सबके द्वारा वर्णित, ८४९ योगी—नित्य
समाधियुक्त, ८५० योगीशः—समस्त योगोंके स्वामी, ८५१
सर्वकामदः—समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, ८५२
आश्रमः—सबको विश्राम देनेवाले, ८५३ श्रमणः—दुष्टोंको
संतप्त करनेवाले, ८५४ क्षामः—प्रलयकालमें सब प्रजाका क्षय
करनेवाले, ८५५ सुपर्णः—मुन्दर पक्षुवाले गरुडस्वरूप,
८५६ वायुवाहनः—वायुको गमन करनेके लिये शक्ति
देनेवाले ॥

८५७ धनुर्धरः—अनुपधारी श्रीराम, ८५८ धनुर्बंदः—
धनुर्विद्याको जाननेवाले श्रीराम, ८५९ दण्डः—दमन करने-
वालोंकी दमनशक्ति, ८६० दमपिता—यम और राजा आदिके
रूपमें दमन करनेवाले, ८६१ दमः—दण्डका कार्य यानी जिनको
दण्ड दिया जाता है उनका मुधार, ८६२ अपराजितः—शत्रुओं-
द्वारा पराजित न होनेवाले, ८६३ सर्वसहः—सब कुछ सहन
करनेकी सामर्थ्यसे युक्त, अतिशय तितित्थ, ८६४ नियन्ता—

सबको अपने-अपने कर्तव्यमें नियुक्त करनेवाले, ८६५ अनियमः-नियमोंसे न बंधे हुए जिनका कोई भी नियंत्रण करनेवाला नहीं ऐसे परमस्वतंत्र, ८६६ अयमः-जिनका कोई शासक नहीं अथवा मृत्युरहित ॥

८६७ सत्त्ववान्-बल, वीर्य, सामर्थ्य आदि समस्त सत्त्वोंसे सम्पन्न, ८६८ सात्त्विकः-सत्त्वगुणप्रधानविग्रह, ८६९ सत्यः-सत्यस्वरूप, ८७० सत्यधर्मपरायणः-अथार्थ भाषण और धर्मके परम आधार, ८७१ अभिप्रायः-प्रेमीजन जिनको चाहते हैं—ऐसे परम इष्ट, ८७२ प्रियाहं-अत्यन्त प्रियवस्तु सम्पन्न करनेके लिये योग्य पात्र, ८७३ अहं-सबके परम पूज्य, ८७४ प्रियकृत्-भजनेवालोंका प्रिय करनेवाले, ८७५ प्रीतिवर्धनः-अपने प्रेमियोंके प्रेमको बढ़ानेवाले ॥

८७६ विहायसगतिः-आकाशमें गमन करनेवाले, ८७७ ज्योतिः-स्वयंप्रकाशस्वरूप, ८७८ सुहृदिः-सुन्दर रश्मि और कान्तिवाले, ८७९ हुतमुक्ः-यज्ञमें हवन की हुई समस्त हविको अग्निरूपसे भक्षण करनेवाले, ८८० विष्णुः-सर्वव्यापी, ८८१ रविः-समस्त रसोंका शोषण करनेवाले सूर्य, ८८२ विरोधोक्तः-विविध प्रकारके प्रकाश फैलानेवाले, ८८३ सूर्यः-शोभाको प्रकट करनेवाले, ८८४ सविता-समस्त ऋतुको प्रसव यानी उत्पन्न करनेवाले, ८८५ रविलोचनः-सूर्यरूप नेत्रोंवाले ॥

८८६ अनन्तः-सब प्रकारसे अन्तरहित, ८८७ हुतमुक्-हवन की हुई सामग्रियोंको खानेवाले, ८८८ भोक्ता-प्रकृतिको भोगनेवाले, ८८९ सुखदः-भक्तोंको दर्शनरूप परम सुख देनेवाले, ८९० बैरजः-धर्मरक्षा, साधुरक्षा आदि परम विद्युत् हेतुओंसे स्वेच्छापूर्वक अनेक जन्म धारण करनेवाले, ८९१ अप्रजः-सबसे पहले जन्मनेवाले आदिपुरुष, ८९२ अतिविष्णुः-कभी किसी प्रकार भी न उकटानेवाले, ८९३ सदादर्शी-सतुल्योंपर क्षमा करनेवाले, ८९४ लोकाधिपत्याम्-समस्त लोकोंके आधार, ८९५ अद्भुतः-अत्यन्त आश्चर्यमय ॥

८९६ सनात्-अनन्तकालस्वरूप, ८९७ सनातनतमः-सबके कारण होनेसे ब्रह्मादि पुराणोंकी अपेक्षा भी परम पुराणपुरुष, ८९८ कपिलः-महर्षि कपिल, ८९९ कपिः-सूर्यदेव, ९०० अघ्यः-सम्पूर्ण जगत्के लयस्थान, ९०१ स्वस्तिदः-परमानन्दरूप भङ्गल देनेवाले, ९०२ स्वस्तिहृत्-आश्रितजनोंका कल्याण करनेवाले, ९०३ स्वस्ति-कल्याण-स्वरूप, ९०४ स्वस्तिभूक्-भक्तोंके परम कल्याणकी रक्षा करनेवाले, ९०५ स्वस्तिरक्षिणः-कल्याण करनेमें समर्थ और शीघ्र कल्याण करनेवाले ॥

९०६ अरीहः-मय प्रकारके रथ (क्रूर) भावोंसे रहित

शान्तमूर्ति, ९०७ कुण्डली-सूर्यके समान प्रकाशमान मकराकृति कुण्डलोंको धारण करनेवाले, ९०८ चक्रो-मुद्रानचक्रको धारण करनेवाले, ९०९ विक्रमो-सबसे विलक्षण पराक्रमशील, ९१० अजितरासनः-जिनका श्रुति-स्मृतिरूप धासन अत्यन्त श्रेष्ठ है—ऐसे अति श्रेष्ठ धासन करनेवाले, ९११ शब्दातिथः-शब्दकी जहाँ पहुँच नहीं, ऐसे वाणीके अविषय, ९१२ शब्दसहः-समस्त वेद-शास्त्र जिनकी महिमाका बखान करते हैं, ऐसे, ९१३ शिशिारः-नितापपीडितोंको धार्मिक देनेवाले शीतलमूर्ति, ९१४ शर्वरीकरः-आनियोंकी रात्रि संसार और अज्ञानियोंकी रात्रि ज्ञान—इन दोनोंको उत्पन्न करनेवाले ॥

९१५ अक्रूरः-सब प्रकारके क्रूरभावोंसे रहित, ९१६ पेशलः-मन, वाणी और कर्म—सभी दृष्टियोंसे सुन्दर होनेके कारण परम सुन्दर, ९१७ दशः-सब प्रकारसे समृद्ध, परम-शक्तिशाली और क्षणमात्रमें बड़े-से-बड़ा कार्य कर देनेवाले महान् कार्यकुशल, ९१८ दक्षिणः-साहायकारी, ९१९ क्षमिणां धरः-क्षमा करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ, ९२० विद्वत्समः-विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान्, ९२१ वीतभयः-सब प्रकारके भयसे रहित, ९२२ पुण्यध्वजकीर्तनः-जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूपका श्रवण और कीर्तन परम पुण्य यानी परमपावन हैं ऐसे ॥

९२३ उत्तारणः-संसारसागरसे पार करनेवाले, ९२४ दुष्कृतिहा-पापोंका और पापियोंका नाश करनेवाले, ९२५ पुण्यः-स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुरुषोंको पवित्र कर देनेवाले, ९२६ दुःस्वप्ननाशनः-घ्यान, स्मरण, कीर्तन और पूजन करनेसे बुरे स्वप्नोंका और संसाररूप दुःस्वप्नका नाश करनेवाले, ९२७ बीरहा-शरणागतोंकी विविध गतियोंका यानी संसारचक्रका नाश करनेवाले, ९२८ रक्षणः-सब प्रकारसे रक्षा करनेवाले, ९२९ सन्तः-विद्या और विनयका प्रचार करनेके लिये सत्त्वरूपसे प्रकट होनेवाले, ९३० शोकः-समस्त प्रजाको प्राणरूपसे जीवित रखनेवाले, ९३१ यथै-वस्थितः-समस्त विश्वको व्याप्त करके स्थित रहनेवाले ॥

९३२ अनन्तहृषः-अनन्त—अमितरूपवाले, ९३३ अनन्तयोः-अनन्तश्री यानी अपरिमित पराशक्तिमें युक्त, ९३४ जितमग्न्युः-सब प्रकारसे श्रेयशकी जीत लेनेवाले, ९३५ धयापहः-अन्तममहारी, ९३६ चतुरधः-चार वेदरूप कोषोंवाले भङ्गलमूर्ति और न्यायशील, ९३७ गंभीरतमा-गम्भीर मनवाले, ९३८ विदिसाः-अधिकारियोंको उनके कर्मानुसार विभागपूर्वक नाना प्रकारके फल देनेवाले, ९३९ ध्यादिसाः-मनको यथायोग्य विधि आज्ञा देनेवाले, ९४० दिसाः-वेदरूपमें समस्त कर्मोंका फल बतलानेवाले ॥

सुन्दर, ७९२ सुन्दः—परम करुणाशील, ७९३ रत्ननाभः—
रत्नके समान सुन्दर नाभिवाले, ७९४ सुलोचनः—सुन्दर
नेत्रोंवाले, ७९५ अर्कः—ब्रह्मादि पूज्य पुरुषोंके भी पूजनीय,
७९६ वाजसनः—याचकोंको अन्न प्रदान करनेवाले, ७९७
शुद्धी—प्रलयकालमें सींगयुक्त मत्स्यविशेषका रूप धारण
करनेवाले, ७९८ जयन्तः—शत्रुओंको पूर्णतया जीतनेवाले,
७९९ सर्वविजयी—सर्वज्ञ यानी सब कुछ जाननेवाले और
सबको जीतनेवाले ॥

८०० सुवर्णबिन्दुः—सुन्दर अक्षर और बिन्दुसे युक्त
ओंकारस्वरूप नाम ब्रह्म, ८०१ अक्षीभ्यः—किसीके द्वारा
भी क्षुभित न किये जा सकनेवाले, ८०२ सर्ववाणीश्वरेश्वरः—
समस्त वाणीपतियोंके यानी ब्रह्मादिके भी स्वामी, ८०३
महाहृदः—ध्यान करनेवाले जिसमें शोभा लगाकर आनन्दमें
मग्न होते हैं, ऐसे परमानन्दके महान् सरोवर, ८०४ महागर्तः—
मायारूप महान् गर्तवाले, ८०५ महाभूतः—त्रिकालमें कभी न
नष्ट होनेवाले महाभूतस्वरूप, ८०६ महानिधिः—सबके
महान् निवास-स्थान ॥

८०७ कुमुदः—कु अर्थात् पृथ्वीको उसका भार उतार-
कर प्रसन्न करनेवाले, ८०८ कुन्दरः—हिरण्यक्षको मारनेके
लिये पृथ्वीको विदीर्ण करनेवाले, ८०९ कुन्दः—कश्यपजीको
पृथ्वी प्रदान करनेवाले, ८१० पर्जन्यः—बादलकी भाँति
समस्त इष्ट वस्तुओंकी वर्षा करनेवाले, ८११ पावनः—स्मरण-
भावसे पवित्र करनेवाले, ८१२ अनिलः—सदा प्रबुद्ध रहने-
वाले, ८१३ अमृतासः—जिनकी आशा कभी विफल न हो—
ऐसे अमोघसंकल्प ८१४ अमृतवपुः—जिनकी देह कभी नष्ट
न हो—ऐसे नित्य-विग्रह, ८१५ सर्वज्ञः—सदा-सर्वदा सब कुछ
जाननेवाले, ८१६ सर्वतोमुखः—सब ओर मुखवाले यानी जहाँ
कहीं भी उनके भक्त भक्तिपूर्वक पत्र-पुष्पादि जो कुछ भी
अर्पण करें, उसे भक्षण करनेवाले ॥

८१७ सुलभः—नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवालेको
और एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्तको विना ही परिश्रमके सुगमतासे
प्राप्त होनेवाले, ८१८ सुव्रतः—सुन्दर भोजन करनेवाले यानी
अपने भक्तोंद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पण किये हुए पत्र-पुष्पादि
मामूली भोजनको भी परम श्रेष्ठ मानकर खानेवाले, ८१९
सिद्धः—स्वभावसे ही समस्त सिद्धियोंसे युक्त, ८२० शत्रुजित्—
देवता और सत्पुरुषोंके शत्रुओंको अपने शत्रु मानकर जीतने-
वाले, ८२१ शत्रुतापनः—शत्रुओंको तपानेवाले, ८२२
न्यग्रोधः—वटवृक्षरूप, ८२३ उदुम्बरः—कारणरूपसे आकाशके
भी ऊपर रहनेवाले, ८२४ अश्वत्थः—पीपल-वृक्षस्वरूप,
८२५ चाणूरान्ध्रनिपूदनः—चाणूर नामक अन्ध्रजातिके वीर
मल्लको मारनेवाले ॥

८२६ सहस्राचिः—अनन्त-किरणोंवाले, ८२७ सप्त-
जिह्वः—काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा,
स्फुलिङ्गिनी और विद्वरुचि—इन सात जिह्वावाले अग्नि-
स्वरूप, ८२८ सप्तधाः—सात दीप्तिवाले अग्निस्वरूप, ८२९
सप्तवाहनः—सात घोड़ोंवाले सूर्यरूप, ८३० अमूर्तिः—मूर्ति-
रहित निराकार, ८३१ अनघः—सब प्रकारसे निष्पाप, ८३२
अचिन्त्यः—किसी प्रकार भी चिन्तन करनेमें न आनेवाले,
८३३ भयकृत्—दुष्टोंको भयभीत करनेवाले, ८३४ भय-
नाशनः—स्मरण करनेवालोंके और सत्पुरुषोंके भयका नाश
करनेवाले ॥

८३५ अणुः—अत्यन्त सूक्ष्म, ८३६ बृहत्—सबसे बड़े,
८३७ कृशः—अत्यन्त पतले और हलके, ८३८ स्थूलः—अत्यन्त
मोटे और भारी, ८३९ गुणमृत्—समस्त गुणोंको धारण
करनेवाले, ८४० निर्गुणः—सत्त्व, रज और तम—इन तीनों
गुणोंसे रहित, ८४१ महान्—गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और ज्ञान
आदिकी अतिशयताके कारण परम महत्त्वसम्पन्न, ८४२
अधृतः—जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता—ऐसे निरा-
धार, ८४३ स्वधृतः—अपने-आपसे धारित यानी अपनी ही
महिमामें स्थित, ८४४ स्वास्यः—सुन्दर मुखवाले, ८४५
प्रावंशः—जिनसे समस्त वंशपरम्परा आरम्भ हुई है—ऐसे
समस्त पूर्वजोंके भी पूर्वज आदि पुरुष, ८४६ वंशवर्धनः—
जगत्-प्रपञ्चरूप वंशको और यादव-वंशको बढ़ानेवाले ॥

८४७ भारभृत्—शेषनाग आदिके रूपमें पृथ्वीका भार
उठानेवाले और अपने भक्तोंके योगक्षेमरूप भारको वहन
करनेवाले, ८४८ कथितः—वेद-शास्त्र और महापुरुषोंद्वारा
जिनके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूपका बारंबार कथन
किया गया है, ऐसे सबके द्वारा वर्णित, ८४९ योगी—नित्य
समाधियुक्त, ८५० योगीशः—समस्त योगोंके स्वामी, ८५१
सर्वकामदः—समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, ८५२
आश्रमः—सबको विश्राम देनेवाले, ८५३ श्रमणः—दुष्टोंको
संतप्त करनेवाले, ८५४ क्षामः—प्रलयकालमें सब प्रजाका क्षय
करनेवाले, ८५५ सुपर्णः—सुन्दर पङ्खवाले गरुडस्वरूप,
८५६ वायुवाहनः—वायुको गमन करनेके लिये शक्ति
देनेवाले ॥

८५७ धनुर्धरः—धनुषधारी श्रीराम, ८५८ धनुर्वदः—
धनुर्विद्याको जाननेवाले श्रीराम, ८५९ दण्डः—दमन करने-
वालोंकी दमनशक्ति, ८६० दमयिता—यम और राजा आदिके
रूपमें दमन करनेवाले, ८६१ दमः—दण्डका कार्य यानी जिनको
दण्ड दिया जाता है उनका सुधार, ८६२ अपराजितः—शत्रुओं-
द्वारा पराजित न होनेवाले, ८६३ सर्वसहः—सब कुछ सहन
करनेकी सामर्थ्यसे युक्त, अतिशय तितिक्षु, ८६४ नियन्ता—

सबको अपने-अपने कर्तव्यमें नियुक्त करनेवाले, ८६५ अनियमः—नियमोंसे न बंधे हुए जिनका कोई भी नियन्त्रण करनेवाला नहीं ऐसे परमस्वतन्त्र, ८६६ अयमः—जिनका कोई शासक नहीं अथवा मृत्युरहित ॥

८६७ सत्त्ववान्—बल, वीर्य, सामर्थ्य आदि समस्त सत्त्वोंसे सम्पन्न, ८६८ सात्त्विकः—सत्त्वगुणप्रधानविग्रह, ८६९ सत्यः—सत्यस्वरूप, ८७० सत्यधर्मपरायणः—यथायं भाषण और धर्मके परम आधार, ८७१ अभिप्रायः—प्रेमीजन जिनको चाहते हैं—ऐसे परम इष्ट, ८७२ प्रियाह्वः—अत्यन्त प्रियवस्तु सम्पन्न करनेके लिये योग्य पात्र, ८७३ अहं—सबके परम पुत्र, ८७४ प्रियकृत—भजनेवालाका प्रिय करनेवाले, ८७५ प्रीतिवर्धनः—अपने प्रेमियोंके प्रेमको बढ़ानेवाले ॥

८७६ विहायसगतिः—आकाशमें गमन करनेवाले, ८७७ ज्योतिः—स्वयंप्रकाशास्वरूप, ८७८ सुहृदिः—सुन्दर हृदि और कान्तिवाले, ८७९ हृतमूकः—यज्ञमें हवन की हुई समस्त हृदिको अग्निरूपसे भक्षण करनेवाले, ८८० विष्णुः—सर्वव्यापी, ८८१ रविः—समस्त रसोंका शोषण करनेवाले सूर्य, ८८२ विरोचनः—विविध प्रकारके प्रकाश फैलानेवाले, ८८३ सूर्यः—सोभाको प्रकट करनेवाले, ८८४ सविता—समस्त गत्योंको प्रसव यानी उत्पन्न करनेवाले, ८८५ रविलोचनः—सूर्यरूप नेत्रोंवाले ॥

८८६ अन्तः—सब प्रकारसे अन्तरहित, ८८७ हृतमूक—हवन की हुई सामग्रियोंको खानेवाले, ८८८ भोक्ता—प्रकृतिको भोगनेवाले, ८८९ सुखदः—भक्तोंको दर्शनरूप परम सुख देनेवाले, ८९० नैकजः—धर्मरक्षा, सामरक्षा आदि परम विदुद्द हेतुओंमें स्वेच्छापूर्वक अनेक जन्म धारण करनेवाले, ८९१ अग्रजः—सबसे पहले जन्मनेवाले आदिपुरुष ८९२ अर्निर्विण्णः—कभी किसी प्रकार भी न उक्तानेवाले, ८९३ सदाभयी—सत्पुरुषोंपर क्षमा करनेवाले, ८९४ लोकाधिपत्यान्—समस्त लोकोंके आधार, ८९५ अद्भुतः—अत्यन्त आश्चर्यमय ॥

८९६ सनात्—अनन्तकालस्वरूप, ८९७ सनातनतमः—सबके कारण होनेसे ब्रह्मादि पुरुषोंकी अपेक्षा भी परम पुराणपुरुष, ८९८ कपितः—ब्रह्मि कपित, ८९९ कपिः—सूर्यदेव, ९०० अप्ययः—सम्पूर्ण जगत्के तपस्यान, ९०१ स्वस्तिदः—परमानन्दरूप मङ्गल देनेवाले, ९०२ स्वस्तिहृत्—आश्रितजनोंका कल्याण करनेवाले, ९०३ स्वस्ति—कल्याणस्वरूप, ९०४ स्वस्तिमूकः—भक्तोंके परम कल्याणकी रक्षा करनेवाले, ९०५ स्वस्तिवर्षणः—कल्याण करनेमें समर्थ और शीघ्र कल्याण करनेवाले ॥

९०६ अरोद्रः—सय प्रकारके ह्र (ऋ) भावोंसे रहित

शान्तमूर्ति, ९०७ कुण्डली—सूर्यके समान प्रकाशमान मकराकृति कुण्डलीको धारण करनेवाले, ९०८ धन्वी—सुदर्शनचक्रको धारण करनेवाले, ९०९ विक्रमी—सबसे विलक्षण पराक्रमशील, ९१० ऋजितासतनः—जिनका धृति-मूर्तिरूप शासन अत्यन्त श्रेष्ठ है—ऐसे अति श्रेष्ठ शासन करनेवाले, ९११ शब्दातिगः—शब्दकी जहाँ पहुँच नहीं, ऐसे वार्त्तिके अविषय, ९१२ शब्दसहः—समस्त वेद-शास्त्र जिनकी महिमाका बखान करते हैं, ऐसे, ९१३ सिंघिः—वितापपीडितोंको धान्ति देनेवाले शीतलमूर्ति, ९१४ शर्वरीकरः—शानियोगी रात्रि संसार और अज्ञानियोंको रात्रि ज्ञान—इन दोनोंको उत्पन्न करनेवाले ॥

९१५ अक्रूरः—सब प्रकारके क्रूरभावोंसे रहित, ९१६ पेशतः—मन, वाणी और कर्म—सभी दृष्टियोंसे सुन्दर होनेके कारण परम सुन्दर, ९१७ दक्षः—सब प्रकारसे समृद्ध, परम-शक्तिशाली और क्षमात्रममें बड़े-से-बड़ा कार्य कर देनेवाले महान् कार्यकुशल, ९१८ वसिष्ठाः—संहारकारी, ९१९ क्षमिणां वरः—क्षमा करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ, ९२० विद्वत्तमः—विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान्, ९२१ शीतमयः—सब प्रकारके भयोंसे रहित, ९२२ पुण्यध्वजकोतनः—जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूपका श्रवण और कर्तन परम पुण्य यानी परमपावन हैं ऐसे ॥

९२३ उत्तारणः—संसार-सागरसे पार करनेवाले, ९२४ दुष्कृतिहा—पापोंका और पापियोंका नाश करनेवाले, ९२५ पुण्य—स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुष्टोंको पवित्र कर देनेवाले, ९२६ दुःस्वप्ननाशनः—ध्यान, स्मरण; कीर्तन और पूजन करनेसे बुरे स्वप्नोंका और संसाररूप दुःस्वप्नका नाश करनेवाले, ९२७ बौरहा—गरणागतोंकी विविध गतिदोका यानी संसारचक्रका नाश करनेवाले, ९२८ रक्षणः—सब प्रकारसे रक्षा करनेवाले, ९२९ सन्तः—विद्या और विनयका प्रचार करनेके लिये सन्त-रूपसे प्रकट होनेवाले, ९३० जीवन्तः—समस्त प्रजाको प्राणरूपसे जीवित रखनेवाले, ९३१ पर्यव्यतिताः—समस्त विश्वको व्याप्त करके स्थित रहनेवाले ॥

९३२ अन्तरूपः—अनन्त—अमितरूपवाले, ९३३ अनन्तधीः—अनन्तधी यानी अपरिमित पराशक्तियोंसे युक्त, ९३४ जितमनुयुः—सब प्रकारसे क्रोधको जीत लेनेवाले, ९३५ भयापहः—भक्तभयहारी, ९३६ शत्रुदधः—चार वेदरूप कोषोंवाले मङ्गलमूर्ति और न्यायशील, ९३७ गंभीरतमा—गंभीर मनवाले, ९३८ विदिशः—अधिकारियोंको उनके कर्मानुसार विभागपूर्वक नाना प्रकारके फल देनेवाले, ९३९ ध्यादिशः—सबको ध्यायीय विविध आज्ञा देनेवाले, ९४० विशाः—वेदरूपसे समस्त कर्मोंका फल वतलानेवाले ॥

१४१ अनादिः-जिसका आदि कोई न हो ऐसे सबके कारणस्वरूप, १४२ भूर्भुवः-पृथ्वीके भी आधार, १४३ अक्षरीः-समस्त शोभायमान वस्तुओंकी शोभा, १४४ सुवीरः-आश्रित जनोके अन्तःकरणमें सुन्दर कल्याणमयी विविध कुरणा करनेवाले, १४५ रुचिराङ्गदः-परम रुचिकर कल्याणमय वाज्रवंदोके धारण करनेवाले, १४६ जननः-आणीमात्रको उत्पन्न करनेवाले, १४७ जनजन्मादिः-जन्म देनेवालोंके जन्मके मूलकारण, १४८ भीमः-दुष्टोंके लिये भयानक, १४९ भीमपराक्रमः-अतिशय भय उत्पन्न करनेवाले पराक्रमसे युक्त ॥

१५० आधारनिलयः-आधारस्वरूप पृथ्वी आदि समस्त भूतोंके स्थान, १५१ अघाता-जिसका कोई भी नानेवाला न हो ऐसे स्वयंस्थित, १५२ पुष्पहासः-पुष्पकी भाँति विकसित हाँसीवाले, १५३ प्रजागरः-भली प्रकार आगत् रहनेवाले नित्यप्रबुद्ध, १५४ ऊर्ध्वगः-सबसे ऊपर रहनेवाले, १५५ सत्पथाचारः-सत्पुरुषोंके मार्गका आवरण करनेवाले मर्यादापुरुषोत्तम, १५६ प्राणदः-परीक्षित् आदि श्रेष्ठोंके भी जीवन देनेवाले, १५७ प्रणवः-ॐकार-स्वरूप, १५८ पणः-यथायोग्य व्यवहार करनेवाले ॥

१५९ प्रमाणम्-स्वतः सिद्ध होनेसे स्वयं प्रमाणस्वरूप, १६० प्राणनिलयः-प्राणोंके आधारभूत, १६१ प्राणभृत्-समस्त प्राणोंका पोषण करनेवाले, १६२ प्राणजीवनः-प्राण आयुके सञ्चारसे प्राणियोंको जीवित रखनेवाले, १६३ तत्त्वम्-यथार्थ तत्त्वरूप, १६४ तत्त्ववित्त-यथार्थ तत्त्वको पूर्णतया जाननेवाले, १६५ एकात्मा-अद्वितीयस्वरूप, १६६ जन्ममृत्युजरारतिगः-जन्म, मृत्यु और वृद्धापा आदि शरीरके धर्मोंसे सर्वथा अतीत ॥

१६७ भूर्भुवःस्वस्वरुहः-भूःभुवः स्वःरूप तीनों लोकोंको व्याप्त करनेवाले और संसारवृक्षस्वरूप, १६८ तारः-संसार-सागरसे पार उतारनेवाले, १६९ सविता-सबको उत्पन्न करनेवाले पितामह, १७० प्रपितामहः-पितामह ब्रह्माके भी पिता, १७१ यज्ञः-यज्ञस्वरूप, १७२ यज्ञपतिः-समस्त यज्ञोंके अधिष्ठाता, १७३ यज्वा-यजमानरूपसे यज्ञ करनेवाले, १७४ यज्ञाङ्गः-समस्त यज्ञरूप अङ्गोंवाले, १७५ यज्ञवाहनः-यज्ञोंको चलानेवाले ॥

१७६ यज्ञभृत्-यज्ञोंका धारण-पोषण करनेवाले, १७७ यज्ञकृत्-यज्ञोंके रचयिता, १७८ यज्ञी-समस्त यज्ञ जिसमें समाप्त होते हैं-ऐसे यज्ञोपेयो, १७९ यज्ञभुक्-समस्त यज्ञोंके भोक्ता, १८० यज्ञसाधनः-ब्रह्मयज्ञ, जपयज्ञ आदि बहुतसे यज्ञ जिनकी प्राप्तिके साधन हैं ऐसे, १८१ यज्ञान्तकृत्-यज्ञोंका अन्त करनेवाले यानी उनका फल देनेवाले, १८२

यज्ञगुह्यम्-यज्ञोंमें गुप्त ज्ञानस्वरूप और निष्काम यज्ञस्वरूप, १८३ अन्नम्-समस्त प्राणियोंके अन्न यानी अन्नकी भाँति उनकी सब प्रकारसे तुष्टि-पुष्टि करनेवाले तथा १८४ अश्रावः-समस्त अन्नोंके भोक्ता भी ॥

१८५ आत्मयोनिः-जिनका कारण दूसरा कोई नहीं-ऐसे स्वयं योनिस्वरूप, १८६ स्वयंजातः-स्वयं अपने-आप स्वेच्छापूर्वक प्रकट होनेवाले, १८७ वैखानः-पातालवासी हिरण्याक्षका वध करनेके लिये पृथ्वीको खोदनेवाले, १८८ सामगायनः-सामवेदका गान करनेवाले, १८९ देवकी-नन्दनः-देवकीपुत्र, १९० स्रष्टः-समस्त लोकोंके रचयिता, १९१ क्षितीशः-पृथ्वीपति, १९२ पापनाशनः-स्मरण, कीर्तन, पूजन और ध्यान आदि करनेसे समस्त पापसमुदायका नाश करनेवाले ॥

१९३ शङ्खभृत्-पाञ्चजन्य शङ्खको धारण करनेवाले, १९४ नन्दकी-नन्दकनामक खड्ग धारण करनेवाले, १९५ चक्री-सुदर्शननामक चक्र धारण करनेवाले, १९६ शार्ङ्ग-धन्वा-शार्ङ्गधनुषधारी, १९७ गदाधरः-कौमोदकी नामकी गदा धारण करनेवाले, १९८ रथाङ्गपाणिः-भीष्मकी प्रतिज्ञा रखनेके लिये सुदर्शन चक्रको हाथमें धारण करनेवाले, १९९ अक्षोभ्यः-जो किसीके द्वारा भी क्षुभित-भयभीत नहीं किये जा सके ऐसे, १००० सर्वप्रहरणायुधः-ज्ञात और अज्ञात जितने भी युद्धादिमें काम आनेवाले हथियार हैं, उन सबको धारण करनेवाले ॥

यहाँ हजार नामोंकी समाप्ति दिखलानेके लिये अन्तिम नामको दुबारा लिखा गया है, मङ्गलवाची होनेसे ॐकारका स्मरण किया गया है, अन्तमें नमस्कार करके भगवान्की पूजा की गयी है ।

इस प्रकार यह कीर्तन करनेयोग्य महात्मा केशवके दिव्य एक हजार नामोंका पूर्णरूपसे वर्णन कर दिया । जो मनुष्य इस विष्णुसहस्रनामका सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोकमें तथा परलोकमें कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता । इस विष्णुसहस्रनामका पाठ करनेसे अथवा कीर्तन करनेसे ब्राह्मण वेदान्त-पारगामी हो जाता है यानी उपनिषदोंके अर्थरूप परब्रह्मको पालेता है । क्षत्रिय युद्धमें विजय पाता है, वैश्य व्यापारमें धन पाता है और शूद्र सुख पाता है । धर्मकी इच्छावाला धर्मको पाता है, अर्थकी इच्छावाला अर्थ पाता है, भोगोंकी इच्छावाला भोग पाता है और प्रजाकी इच्छावाला प्रजा पाता है । जो भक्तिमान् पुरुष सदा प्रातःकालमें उठकर स्नान करके पवित्र हो मनमें विष्णुका ध्यान करता हुआ इस वासुदेव-सहस्रनामका भली प्रकार पाठ करता है, वह महान्

यश पाता है, जातिमें महत्त्व पाता है, अचल सम्पत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेजको पाता है तथा आरोग्यवान्, कान्तिमान्, बलवान्, रूपवान् और सर्वगुणसम्पन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोगसे छूट जाता है, बन्धनमें पड़ा हुआ पुरुष बन्धनसे छूट जाता है, भयभीत भयसे छूट जाता है और आपत्तिमें पड़ा हुआ आपत्तिसे छूट जाता है। जो पुरुष भक्तिसम्पन्न होकर इस विष्णुसहस्रनामसे पुरुषोत्तम भगवान्को प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटोंसे पार हो जाता है। जो मनुष्य वायुदेवके आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापोंसे छूटकर विशुद्ध अन्तःकरणवाला हो सनातन परब्रह्मको पाता है। वायुदेवके भक्तोंका कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता है तथा उनको जन्म-मृत्यु, जरा और व्याधिका भी भय नहीं रहता है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भक्तिभावसे इस विष्णुसहस्रनामका पाठ करता है, वह आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्तिको पाता है। पुरुषोत्तमके पुण्यात्मा भक्तोंको किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रसहित आकाश, दस दिशाएँ, पृथ्वी और

महासागर—ये सब महात्मा वायुदेवके वीर्यसे धारण किये गये हैं। देवता, वैश्य, गन्धर्व, यक्ष, सर्प और राक्षससहित यह स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण जगत् शोक्लणके अधीन रहकर यथायोग्य बरत रहे हैं। इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धोरज, क्षेत्र (शरीर) और क्षेत्रत (आत्मा)—ये सब शोवायुदेवके रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रोंमें आचारको प्रथम माना जाता है, आचारसे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है और धर्मके स्वामी भगवान् अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, पञ्चमहाभूत, धातुएँ और स्थावर-जङ्गमात्मक, सम्पूर्ण जगत्—ये सब नारायणसे ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएँ, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान—ये सब विष्णुसे उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विरक्ते भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं, जो अनेक रूपोंमें विभक्त होकर मित्र-मित्र भूतबिभेक्षकों अनेकों रूपोंको धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकोंमें ध्यात होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, वह भगवान् व्यासजीके कहे हुए इस विष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रका पाठ करे। जो विरक्ते-ईश्वर जगत्को उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करनेवाले जन्मरहित कमललोचन भगवान् विष्णुका भजन करते हैं, वे कभी परामय नहीं पाते हैं।

जपने योग्य मन्त्र और सवेरे-शाम कीर्तन करने योग्य देवता आदिके मङ्गलमय नामोंका वर्णन और गायत्री-जपका फल

मुष्टिघट्टने पूछा—पितामह! आप सम्पूर्ण शास्त्रोंके विद्वान् हैं, अतः मैं पूछता हूँ कि प्रतिदिन किस स्तोत्र या मन्त्रका जप करनेसे धर्मके महान् फलकी प्राप्ति हो सकती है? यात्रा, गृह-प्रवेश या किसी कर्मका आरम्भ करते समय अथवा देवयज्ञमें या धार्द्रिके समय किसका जप करनेसे कर्मकी पूति हो जाती है? शान्ति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुनाश तथा भयनिवारण करनेवाला कौन-सा ऐसा जप है, जो वेदके समान महत्त्व रखता है? आप उसे बतानेकी कृपा करें।

भौत्मजीने कहा—राजन्! महर्षि वेदव्यासका बतया हुआ मन्त्र मैं सुनूँ बतला रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो—शाबित्री देवीने इस मन्त्रकी सृष्टि की है तथा यह सत्त्वत हो पापसे छुटकारा दिलावेवाला है। जो इस मन्त्रको सुनता है, वह दीर्घजीवी होता है, उसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, और वह इहलोक तथा परलोकमें भी आनन्द भोगता है। प्राचीनकालमें क्षत्रिय-धर्मका पालन करनेवाले और सदा सत्य-

धर्मके आचरणमें संलग्न रहनेवाले राजपिणग इस मन्त्रका सदा ही जप किया करते थे। जो राजा इन्द्रियोंको वशमें करके शान्तिपूर्वक प्रतिदिन इस मन्त्रका पाठ करते हैं, उन्हें सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राप्त होती है।

(यह मन्त्र इस प्रकार है—) महान धतधारी मतिष्ठ, वेदान्धि, पराशर, विशाल, सपरुषधारी अनन्त (शैयनाग), असय सिद्धगण, ऋषियन्त्र तथा परात्पर, देवाधिदेव, वरदाता एवं सहस्र मस्तकवाले शिवको और सहस्रों नाम धारण करनेवाले भगवान् जनार्दनको नमस्कार है।

अजैकपाद्, अहिबुध्न्य, पिनाकी, अपराजित, ऋत, पितृ-रूप, त्र्यम्बक, महेश्वर, घृणाकपि, शम्भु, हवन और ईश्वर—ये ग्यारह दश विल्यात हैं, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं। वेदके शतध्वज-प्रकरणमें दशके संस्कृतों नाम बताये गये हैं। अंस, भग, मित्र, जनेश्वर वरुण, धाता, अयमा, जयन्त, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र तथा विष्णु—ये बारह दश

कहलाते हैं। ये सब-के-सब कश्यपके पुत्र हैं। धर, ध्रुव, सोम, सावित्र, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास—ये आठ वसु कहे गये हैं। नासत्य और दत्त—ये दोनों अश्विनीकुमारके नामसे प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान् सूर्यके वीर्यसे हुई है। ये अश्वरूपधारिणी संज्ञादेवीकी नाकसे प्रकट हुए थे (ये सब मिलाकर तैंतीस देवता हैं)।

अब मैं जगत्के कर्मपर दृष्टि रखनेवाले तथा यज्ञ, दान और मुक्तको जाननेवाले देवताओंका परिचय देता हूँ। ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियोंके शुभाशुभ, कर्मोंको देखते रहते हैं। इनके नाम ये हैं—मृत्यु, काल, विश्रवेदेव और मूर्तिमात् पितृगण। इनके सिवा तपस्वी मुनि तथा तप एवं मोक्षमें संलग्न सिद्ध महर्षि भी सम्पूर्ण जगत्पर दृष्टि रखते हैं। ये स-अपना नाम-कीर्तन करनेवाले मनुष्योंको शुभ फल देते हैं। प्रजापति ब्रह्माजीने जिन लोकोंकी रचना की है, उन सबमें ये अपने दिव्य तेजसे निवास करते हैं तथा शुद्धभावसे सबके कर्मोंका निरीक्षण करते हैं। ये सबके प्राणोंके स्वामी हैं। जो मनुष्य शुद्ध भावसे इनका कीर्तन करता है, उसे प्रचुर मात्रामें धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति होती है तथा वह लोकनाय ब्रह्माजीके रचे हुए मङ्गलमय पवित्र लोकोंमें जाता है। ऊपर बताये हुए तैंतीस देवता सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी हैं। इसी प्रकार नन्दीश्वर, महाकाय, ग्रामणी, वृषभध्वज, सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी गणेश, विनायक, सौम्यगण, रुद्रगण, योगगण, भूतगण, नक्षत्र, नदियाँ, आकाश, पक्षिराज गरुड़, पृथ्वीपर तपसे सिद्ध हुए महात्मा, स्यावर, जङ्गम, हिमालय, समस्त पर्वत, चारों समुद्र, भगवान् शंकरके तुल्य पराक्रमवाले उनके अनुचरण, विष्णु, जिष्णु, स्कन्द और अम्बिका—इन सबके नामोंका शुद्ध भावसे कीर्तन करनेवाले मनुष्यके सब पाप नष्ट हो जाते हैं।

अब श्रेष्ठ महर्षियोंके नाम बता रहा हूँ—यवकीर्त, रंभ्य, अर्वावसु, परावसु, उशिजके पुत्र कक्षीवान्, अङ्गिरानन्दन वल और मेधातिथिके पुत्र कण्वऋषि—ये सब ऋषि ब्रह्म-तेजसे सम्पन्न और लोकखण्डा वतलाये गये हैं। इनका तेज रुद्र, अग्नि तथा वसुओंके समान है। ये पृथ्वीपर शुभ कर्म करके अब स्वर्गमें देवताओंके साथ आनन्दपूर्वक रहते और शुभ फलका उपभोग करते हैं। ये सातों महर्षि महेंद्रके गुरु (ऋत्विज) हैं और पूर्व दिशामें निवास करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्तसे इनका नाम लेता है, वह इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। उन्मुचु, प्रमुचु, स्वस्त्यात्रेय, वृद्धव्य, ऊर्ध्वबाहु, वृण सोमाङ्गिरा और मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य मुनि—ये सात धर्मराज (यम) के ऋत्विज हैं और दक्षिण दिशामें निवास करते हैं। वृधेयु, ऋतेयु, परि-

व्याध, एकत, द्वित, त्रित तथा अत्रिके पुत्र सारस्वत मुनि—ये सात वरुणके ऋत्विज हैं और पश्चिम दिशामें इनका निवास है। अत्रि, भगवान् वसिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और ऋचीकनन्दन जमदग्नि—ये सात उत्तर दिशामें रहनेवाले और कुबेरके गुरु (ऋत्विज) हैं। इनके सिवा सात महर्षि और हैं जो सम्पूर्ण दिशाओंमें निवास करते हैं। वे जगत्को उत्पन्न करनेवाले हैं। उपर्युक्त महर्षियोंका यदि नाम लिया जाय तो वे मनुष्योंकी कीर्ति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं। धर्म, काम, काल, वसु, वासुकि, अनन्त और कपिल—ये सात पृथ्वीको धारण करनेवाले हैं। ये महात्मा इस जगत्में शान्ति और कल्याणका विस्तार करनेवाले और दिशाओंके पालक कहलाते हैं। ये जिस-जिस दिशामें निवास करें उसी दिशाकी ओर मुंह करके इनकी शरण लेनी चाहिये। ये सम्पूर्ण भूतोंके खण्डा और लोकपावन बताये गये हैं। संवर्त, मेरुसावर्ण, मार्कण्डेय, सांख्य, योग, नारद और सहर्षि दुर्वासा—ये सात ऋषि अत्यन्त तपस्वी, जितेन्द्रिय और त्रिभुवनमें विख्यात हैं। इन सब ऋषियोंके अतिरिक्त बहुत-से महर्षि रुद्रके समान प्रभावशाली और ब्रह्मलोकके निवासी हैं। इनका कीर्तन करनेसे मनुष्यके धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धि होती है।

पूर्वकालमें यह पृथ्वी जिनकी पुत्री हुई थी, उन वेन-नन्दन महाराज पृथुके नाम और गुणोंका कीर्तन करना चाहिये। जिन्होंने सूर्यवंशमें जन्म लेकर इन्द्रके समान पराक्रम दिखलाया था, जो इलाके गर्भसे उत्पन्न और बुधके प्रिय पुत्र थे, उन त्रिलोकविख्यात राजा पुरूरवाका भी नाम लेना चाहिये। इसी प्रकार त्रिभुवनमें प्रसिद्ध वीर भरतका और जिन्होंने सत्ययुगमें विश्वजित् यज्ञका अनुष्ठान किया था, उन तपस्वी राजा रन्तिदेवका भी नाम-कीर्तन करना चाहिये। परम कान्तिमान् राजर्षि श्वेत और गङ्गाजलके द्वारा सगरपुत्रोंका उद्धार करनेवाले महाराज भगीरथका नाम भी स्मरण करने योग्य है। ये सभी राजा अग्निके समाज तेजस्वी, महान् धीर और अपनी कीर्तिको बढ़ानेवाले थे। इन सबका कीर्तन करना चाहिये। श्रुतियोंके आधार-भूत परब्रह्म परमात्माका कीर्तन सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये मङ्गलमय है। मनुष्यकी प्रतिदिन सबेरे और शामके समय भगवत्कीर्तनके साथ ही उपर्युक्त देवताओं, ऋषियों और राजाओंका भी नाम लेना चाहिये। ये देवता ही जगत्की रक्षा करते, पानी बरसाते, प्रकाश और हवा देते तथा प्रजाकी सृष्टि करते हैं। ये ही विघ्नोंके राजा विनायक, श्रेष्ठ, दक्ष, क्षमाशील और जितेन्द्रिय हैं। ये महात्मा सबके पाप और पुण्योंके साक्षी हैं, इनका नाम लेनेपर ये मनुष्योंके अमङ्गलका

मास करते हैं। जो सबदे उठ्यर इनके नाम और गुणोंका उच्चारण करता है उसको शुभ कर्मोंके भोग प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन इन देवताओंका कीर्तन करनेसे मनुष्योंके दुःस्वप्न नष्ट हो जाते हैं और वे सब पापोंसे छुटकारा पा जाते हैं। जो द्विज प्रत्येक वीक्षाके समय नियमपूर्वक रहकर इन पवित्र नामोंका पाठ करता है, वह न्यायवान्, आत्मनिष्ठ, क्षमाशील, जितेन्द्रिय और दोषवृष्टिसे रहित होता है। रोग-व्याधिसे श्रस्त मनुष्य इसका पाठ करनेपर पापमूक्त एवं नीरोग हो जाता है। जो अपने घरके भीतर इन नामोंका पाठ करता है, उसके कुलका कल्याण होता है। दूसरे गाँवको यात्रा करते समय जो इस नामावलीका पाठ करता है, उसका मार्ग सुकुशल समाप्त होता है। जो देवयज्ञ और श्राद्धके समय उपर्युक्त नामोंका पाठ करता है, उसके हृदयको देवता और कव्यको पितर सहर्ष स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य जहाजमें या किसी सवारोंमें बैठनेपर विदेशमें अथवा राजदरबारमें जानेपर मन-हीमन गायत्री-मन्त्रका जप करता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्रीका जप करनेसे राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा और साँप आदिसे भय नहीं होता। गायत्री-मन्त्रका जप करनेवाला पुरुष चारों बगों और चारों आश्रमोंमें

शान्ति स्थापित करता है। जिस घरमें प्रतिदिन गायत्रीका जप होता है वहाँ आग नहीं लगती, बालकनेकी मृत्यु नहीं होती और साँप नहीं ठहरते। जो परब्रह्मस्वरूप गायत्रीके गुणोंका कीर्तन सुनते हैं, उनके दुःख दूर हो जाते हैं और वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। यह सिद्धिको प्राप्त हुए महर्षि वेदव्यासका कहा हुआ प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर मुनिके दिव्य मतका वर्णन है। पूर्वकालमें इन्द्रको इसका उपदेश किया गया था, वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सावित्री-मन्त्र सत्य सनातन ब्रह्मरूप है। यह सम्पूर्ण भूतोंका हृदय और सनातनो धृति है। चन्द्र, सूर्य, रघु और पुरुके वंशमें उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भावसे प्रतिदिन गायत्री-मन्त्रका जप करते थे। गायत्री संसारके प्राणिमोंकी परम गति है। कामध, गीतम, भृगु, अङ्गिरा, अत्रि, शुक, अगस्त्य और बृहस्पति आदि युद्ध ब्रह्मर्षियोंने सदा ही गायत्री-मन्त्रका सेवन किया है। भृगुका नाम लेनेसे धर्मको वृद्धि होती है। वसिष्ठ मुनिको नमस्कार करनेसे धर्म बढ़ता है। राजा रघुको प्रणाम करनेसे संप्रभामें विजय प्राप्त होती है और अश्विनीकुमारोंके नाम लेनेसे कभी रोग नहीं सताता। राजन्! इस प्रकार सनातन ब्रह्मरूपा गायत्रीका माहात्म्य मैंने तुम्हें बताया है।

ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन तथा कार्तवीर्य और वायुदेवताका संवाद

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! संसारमें कौन मनुष्य पुण्य है? किनको नमस्कार करना चाहिये? किनके साथ कंसा बर्ताव करना उचित है? तथा कंसे लोगोंके साथ किस प्रकारका आचरण करनेसे कोई हानि नहीं होती?

भौष्मजीने कहा—युधिष्ठिर! ब्राह्मणोंका अपमान देवताओंको भी दुःखमें डाल सकता है, अतः राजाको चाहिये कि यह ब्राह्मणोंकी पूजा और उनको नमस्कार करे तथा ब्राह्मणोंके निकट पुत्रको भाँति विनययुक्त बर्ताव करे; क्योंकि ब्राह्मण समस्त जगत्की धर्ममर्यादाका संरक्षण करनेवाले सेतुके समान हैं। वे धनका त्याग करके प्रसन्न होते और वाणीका संयम रखते हैं। वे उत्तम निधि, श्रतका पालन करनेवाले, लोक और शास्त्रके निर्माता और परम यशस्वी हैं। तपस्या उनका धन और वाणी उनका महान् बल है। वे धर्मोंके कारण, धर्मज्ञ, सुकर्मदर्शी, धर्मको इच्छा रखनेवाले, पुण्य-कर्मोंद्वारा धर्ममें स्थित रहनेवाले और धर्मके सेतु हैं। उन्होंनेका आश्रय लेकर धार प्रकारकी प्रजा जीवन धारण करती है। ब्राह्मण ही सबके पथप्रदर्शक, नेता, यशका मार बहान करनेवाले और सनातन हैं। वे देवता, पितर और अतिथियोंके मुख तथा हृदय-कव्यमें प्रथम भोजनके अधिकारी

हैं। ब्राह्मण सबको उपदेश देनेवाले हैं। वे ही उनका धन है। वे शास्त्रज्ञानमें कुशल, मोक्षधर्मके ज्ञाता, सब जीवोंकी गतिको जाननेवाले और अत्यात्मतत्त्वका चिन्तन करनेवाले हैं। उन्हें आदि, मध्य और अवसानका ज्ञान होता है। उनके संशय दूर हो गये होते हैं। वे ऊँच-नीच या भूत-भविष्यके ज्ञाता और परम गतिको जाननेवाले हैं। सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त और निष्पाप हैं। उनके चित्तपर इन्द्रोंका प्रभाव नहीं पड़ता। वे सब प्रकारके परिग्रहका त्याग करनेवाले और सम्मान धानेके योग्य हैं। ज्ञानी महात्मा उन्हें सदा ही आदर देते रहते हैं। वे चन्दन और मसके कीचड़में, भोजन और उपवासमें तथा रेशमों वस्त्र और मुगछातामें समान दृष्टि रखते हैं। वे चाहें तो बहुत विनीतक बिना भोजन किये रह सकते हैं, अपनी इन्द्रियोंको वरामें रखकर स्वाध्याय करते हुए शरीरको मुला सकते हैं और जो देवता नहीं है उसको देवता बना सकते हैं। यदि वे कोपमें भर जायें तो देवताओंको भी देवत्वसे छष्ट कर सकते हैं; दूसरे-दूसरे लोक और लोकपालोंकी रचना कर सकते हैं। उन्होंने महात्माओंके शापसे समुद्रका पानी पीने योग्य नहीं रहा। उनको क्रोधाग्नि इच्छाकरव्यमें आज्ञातक शान्त

हुई। वे देवताओंके भी देवता, कारणके भी कारण और प्रमाणके भी प्रमाण हैं। भला कौन मनुष्य बुद्धिमान् होकर भी उन ब्राह्मणोंका अपमान करेगा? ब्राह्मणोंमें कोई बूढ़े हों या बालक, सभी सम्मानके योग्य हैं। ब्राह्मणलोग आपसमें तप और विद्याकी अधिकता देखकर एक दूसरेका सम्मान करते हैं। विद्याहीन ब्राह्मण भी देवताके समान और परम पवित्र माना जाता है, फिर जो विद्वान् है उसके लिये तो कहना ही क्या है? वह तो महान् देवताके समान है।

युधिष्ठिरने पूछा—महामते! आप कौन-सा फल देखकर और किस कर्मका उदय सोचकर ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं?


भीष्मजीने कहा—राजन्! इस विषयमें कार्तवीर्य अर्जुन और वायुदेवत के वंशदरूप प्राचीन इतिहासका वर्णन किया जाता है। पुराकालकी बात है, माहिष्मती नगरीमें सहज भुजाधारी कार्तवीर्य अर्जुन नामवाला एक राजा राज्य करता था। वह महान् बलवान् और सत्यपराक्रमी था। इस लोकमें सर्वत्र उसीका आधिपत्य था। एक समय, कृत-वीर्यकुमार अर्जुनने क्षत्रिय-धर्मको आगे करके विनय और शास्त्रज्ञानके अनुसार बहुत दिनोंतक मुनिवर दत्तात्रेयकी आराधना की और अपना सारा धन उनकी सेवामें अर्पण कर दिया। दत्तात्रेयजी उसके ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उसे तीन वर माँगनेके लिये उन्होंने आज्ञा दी। तब राजाने कहा—

‘भगवन्! मैं युद्धमें तो हजार भुजाओंसे युक्त रहूँ, किंतु घरपर मेरी दो ही बाँहें रहें। रणभूमिमें सभी सैनिकोंको मेरी एक हजार बाँहें वृष्टिगोचर हों और मैं अपने पराक्रमसे सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत लूँ। इस प्रकार पृथ्वीको धर्मके अनुसार प्राप्त कर मैं आतस्यरहित होकर इसका पालन करूँ। इसके सिवा एक बातके लिये और प्रार्थना करता हूँ, मुझपर कृपा करके आप इसे भी पूर्ण करें। यदि कभी सन्मार्गका परित्याग करके असत्य-मार्गका आश्रय लूँ तो साधु पुरुष मुझे राहपर लानेके लिये शिक्षा दें।’

उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दत्तात्रेयजीने ‘तथास्तु’ कहकर उपर्युक्त वर दे दिये। तब राजा कार्तवीर्य सूर्यके समान तेजस्वी रथपर बैठकर (सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय पानेके अनन्तर) बलके अस्मिमानसे मोहित होकर कहने लगा—‘धैर्य, वीर्य, यश, शूरता, पराक्रम और ओजमें मेरे समान दूसरा कौन है?’ उसकी यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई—‘मूर्ख! तुम्हें पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रियसे भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मणकी सहायतासे ही क्षत्रिय इस लोकमें प्रजाका शासन कर सकता है।’

कार्तवीर्यने कहा—मैं प्रसन्न होनेपर प्राणियोंकी सृष्टि कर सकता हूँ और कुपित होनेपर उनका नाश कर सकता हूँ। मन, वाणी अथवा क्रियाके द्वारा भी ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ब्राह्मण क्षत्रियोंके आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं; किंतु क्षत्रिय कभी ब्राह्मणके आश्रयमें नहीं रहता। प्रजा-पालनरूप धर्म क्षत्रियोंपर ही अवलम्बित है, क्षत्रियसे ही ब्राह्मणकी जीविका प्राप्त होती है, फिर ब्राह्मण क्षत्रियोंसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आजसे मैं सदा भोख माँगकर जीवन-निर्वाह करनेवाले और अपनेको सबसे श्रेष्ठ माननेवाले ब्राह्मणोंको अपने अधीन रखूँगा। आकाशमें स्थित गायत्रीने जो ब्राह्मणोंको क्षत्रियोंसे श्रेष्ठ बतलाया है, वह बिल्कुल झूठ है। मृगछाला पहननेवाले सभी ब्राह्मण विवश होते हैं, मैं इन सबको जीत लूँगा। तीनों लोकोंमें कोई भी देवता या मनुष्य ऐसा नहीं है, जो मुझे राज्यसे छुट कर सके; अतः मैं ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ हूँ। संसारमें अबतक ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, किंतु आजसे मैं क्षत्रियोंकी प्रधानता स्थापित करूँगा। संग्राममें कोई भी मेरे बलको नहीं सह सकता।

यह सुनकर अन्तरिक्षमें स्थित हुए वायुदेवताने कहा—‘कार्तवीर्य! तू इस दूषित भावनाको त्याग दे और ब्राह्मणोंको प्रणाम कर। यदि तू इनकी बुराई करेगा तो तेरे राज्यमें विप्लव मच जायगा। ब्राह्मण महान् शक्तिशाली होते हैं, यदि तू उनके उत्साहमें बाधा डालेगा तो वे तुम्हें नष्ट कर देंगे अथवा राज्यसे बाहर निकाल देंगे।’ यह



बात सुनकर कार्तवीर्यने पूछा—‘महानुभाव ! आप कौन हैं ?’ उत्तर मिला—‘मैं देवताओंका वृत्त धारु हूँ और तुम्हें हितकी बात बता रहा हूँ ।’

कार्तवीर्यने कहा—‘वायुदेव ! ऐसी बात कहकर आपने ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति और अनुरागका परिचय दिया है । अच्छा, आपकी जानकारीमें यदि कोई पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, सूर्य अथवा आकाशके समान श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसे बताइये ।’

वायुने कहा—‘सूक्ष्म ! मैं महात्मा ब्राह्मणोंके कतिपय गुणोंका वर्णन करता हूँ, सुन—तूने पृथ्वी, जल और अग्नि आदि जिन लोगोंका नाम लिया है, उन सबकी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं । एक बार राजा अङ्गिरसके साथ स्वर्ग (लाग-डर्ट) होनेके कारण पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी लोकधारणरूप अपने धर्म (धरणीत्व) का परित्याग करके अन्यत्र चली गयी । उस समय विप्रवर करयपने ही अपनी शक्तिते इस स्थूल पृथ्वीको धाम रचला था । इसलिये ब्राह्मण मर्त्यलोका और स्वर्गमें भी अजेय हैं । पहलेकी बात है, महाभयना अङ्गिरस मुनि जलको दूधकी भाँति पी रहे थे । उस समय उन्हें पीनेसे तृप्त हो नहीं होती थी, अतः पीते-पीते वे पृथ्वीका सारा जल पी गये । तत्परचात् फिर उन्होंने जलका महान् झोत बहाकर सम्पूर्ण पृथ्वीको भर दिया । वे ही अङ्गिरस मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गये थे; उस समय उनके डरसे इस जगत्की त्यागकर मुझे बहुत दिनोंतक अग्निहोत्रकी अग्निमें निवास करना पड़ा था । महर्षि गीतमने इंद्रकी अहल्यापर आसक्त होनेके

कारण शाप दे दिया था; केवल धर्मकी रक्षाके लिये उनके प्राण नहीं लिये । समुद्र पहले भीठे जलसे भरा रहता था, किंतु ब्राह्मणोंके शापसे उसका पानी खारा हो गया । अग्निका रंग पहले सोनेके समान था, उसमेंसे धूर्वा नहीं उठता था और उसकी सपट सदा ऊपरकी ओर ही उठती थी; किंतु क्रोधमें भरे हुए अङ्गिरस ऋषिने उसे शाप दे दिया, इसलिये अब उसमें पूर्वोक्त गुण नहीं रह गये । बेलो, ब्रह्मर्षि कपिलके शापसे वध हुए सगरपुत्रोंकी, जो पद्मसम्बन्धी अरबकी खोज करते हुए यहाँ समुद्रतक आये थे, यह राजकी डेरी पड़ी हुई है । इसलिये राजन् ! तू ब्राह्मणोंको समानता कदापि नहीं कर सकता, उनसे अपने कल्याणका उपाय जाननेका ध्यान कर । राजा तो गर्भमें स्थित हुए ब्राह्मणोंको भी प्रणाम करते हैं । दण्डकाट्यका विरासल साम्राज्य ब्राह्मणोंने ही नष्ट कर दिया । तालजङ्ग नामवाले महान् क्षत्रिय-वंशका अकेले महात्मा ओर्वेने संहार कर डाला । तुम्हें भी जो परम दुर्लभ विरासल राज्य, बल, धर्म तथा शास्त्रज्ञानकी प्राप्ति हुई है, वह विप्रवर दत्तात्रेयजीकी कृपाका ही फल है । श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीवकी रक्षा करनेवाला और जीव-जगत्की सृष्टि करने-वाला है, इस धातको जानकर भी तू क्यों मोहमें पड़ा हुआ है ? जिन्होंने इस सम्पूर्ण धराचर जगत्की सृष्टि की है, वे अक्षयवत्स्वरूप अविनाशो प्रजापति ब्रह्माजी भी ब्राह्मण ही हैं ।

यह सुनकर राजा कार्तवीर्य चुप हो गया । सब धारु-देवताने पुनः कहना आरम्भ किया ।

वायुदेवताके द्वारा कश्यप, अगस्त्य, वसिष्ठ, अत्रि और च्यवन मुनिको महिमाका वर्णन

वायुने कहा—‘राजन् ! पूर्वकालकी बात है, अङ्ग नाम-वाले एक राजाने इस पृथ्वीको ब्राह्मणोंके लिये दान कर देने-का विचार किया, यह जानकर पृथ्वीकी बड़ी विन्ता हुई । यह सोचने लगी—‘मैं सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करनेवाली और ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ । मुझे पाकर यह श्रेष्ठ राजा क्यों ब्राह्मणोंको देना चाहता है ? यदि इसका ऐसा विचार है तो मैं भी मूर्तिस्वरूप (लोक-धारणरूप अपने धर्मका) त्याग करके ब्रह्मलोकको चली जाऊँगी; मले ही मेरे जानसे यह राजा अपने राज्यसहित नष्ट हो जाय ।’ ऐसा निरवयव करके पृथ्वी चली गयी । महर्षि करयपने जब पृथ्वीको जाती देखा तो योगका आशय से सुरंत अपना शरीर त्याग दिया और पृथ्वीके इस स्थूल विग्रहमें वे प्रविष्ट हो गये । उनके प्रवेश करनेसे पृथ्वी पहलेकी अपेक्षा भी समृद्ध हो गयी । धारों और घास-घास

और अन्नकी उपज अधिक मात्रामें होने लगी । उंटरोत्तर धर्म बढ़ने लगा और भयका नाश हो गया । इस प्रकार विरासल व्रतका पालन करनेवाले महर्षि करयप तोता हजार दिव्य धर्मोत्तक सजग होकर पृथ्वीके रूपमें स्थित रहे । तत्परचात् पृथ्वी ब्रह्मलोकके सौंदर्य आमी और उन्हें प्रणाम करके उसने अपनेको उनकी पुत्री माना । तमोसे पृथ्वीका नाम कश्यपी हो गया । राजन् ! ये कश्यपजी ब्राह्मणही थे, जिनका ऐसा प्रभाव देला गया है । तू कश्यपसे भी श्रेष्ठ किसी क्षत्रियको जानता हो तो मुझे बता ।

इस प्रकार पूछनेपर भी राजा कार्तवीर्यने कोई जवाब नहीं दिया । सब वायुदेवता फिर बहने लगे—‘राजन् ! अब तू ब्रह्मर्षि अगस्त्यका माहात्म्य ध्वज्य कर । प्राचीन समयमें अयुरीने देवताओंको परासल करके उनका उस्ताह नष्ट कर

दिया। उन्होंने देवताओंका यज्ञ, पितरोंका श्राद्ध तथा मनुष्योंका कर्मानुष्ठान लुप्त कर दिया। तब अपने ऐश्वर्यसे घ्रष्ट हुए देवतालोग पृथ्वीपर मारे-मारे फिरने लगे। घूमते-घूमते एक दिन उन्हें महान् व्रतका पालन करनेवाले अत्यन्त तेजस्वी अगस्त्यजीका दर्शन हुआ। देवताओंने उन्हें प्रणाम करके कहा—‘मुनिश्रेष्ठ! दानवोंने हमें युद्धमें हराकर हमारा ऐश्वर्य छीन लिया है। आप इस महान् भयसे हमारी रक्षा कीजिये।’ देवताओंके इस प्रकार कहनेपर तेजस्वी महर्षि अगस्त्यजीके दैत्योंके प्रति बड़ा क्रोध हुआ। ये प्रलयकालीन अग्निके समान प्रज्वलित हो उठे। उनके शरीरसे निकलती हुई उद्दीप्त किरणोंकी ज्वालासे सहस्रों दानव भस्म हो-होकर आकाशसे पृथ्वीपर गिरने लगे। तब दैत्यगण दोनों लोकोंका परित्याग करके वक्षिण दिशाकी ओर भाग गये। उस समय राजा बलि पृथ्वीपर आकर अश्व-मेधयज्ञ कर रहे थे, अतः जो दैत्य उनके साथ पृथ्वीपर थे और जो पातालमें रह गये थे, वे ही दग्ध होनेसे बचे। इस प्रकार अगस्त्यके तेजसे स्वर्गवासी दैत्योंके दग्ध हो जानेपर देवताओंका भय दूर हुआ और वे पुनः अपने-अपने लोकमें चले गये। कार्तवीर्य! ऐसे प्रभावशाली अगस्त्य मुनिकी कथा मैंने तुम्हे सुनायी है, तू उनसे भी श्रेष्ठ किसी क्षत्रियको जानता हो तो बता।’

यह सुनकर भी राजा कार्तवीर्य मौन ही रहा। तब वायुने पुनः कहना आरम्भ किया—‘राजन्! अब तू परम यशस्वी वसिष्ठ मुनिके एक महान् कर्मकी कथा श्रवण कर। एक समय देवताओंने मानसरोवरके तटपर यज्ञ आरम्भ किया, उस सरोवरके पास पर्वतके समान आकारवाले बहुतसे दानव रहते थे, जो ‘खली’ नामसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने देवताओंको जब यज्ञ करते देखा तो उन सबको मार डालनेका धिंकार किया। फिर तो दोनों दलोंमें युद्ध छिड़ गया। मानसरोवर वहाँसे निकट था और ब्रह्माजीने उसके विषयमें दैत्योंकी वरदान दे रखा था कि इतमें डुबकी लगानेसे तुम्हें नवीन जीवन्त मिलेगा। अतः उस समय दानवोंनेसे जो हुताहुत होते थे, उन्हें दूधरे दानव मानसरोवरमें फेंक देते और वे उसके जलमें डुबकी लगते ही जी उठते थे; फिर सरोवरके जलको तो योजन ऊँचे उछालते तथा हाथमें भयंकर पर्वत, परिघ और दूध जिम्मे हुए वे देवताओंपर दूट पड़ते थे। उन दानवोंकी संख्या दस हजारकी थी। जब उन्होंने देवताओंकी धच्छी तरह फीड़ित किया तो वे जागकर दृग्गन्ती शरणमें गये। इन्द्रजी भी उन दैत्योंसे निद्राकर पत्थर उठाना पड़ा, अतः वे वसिष्ठजीकी शरणमें गये। भगवान् वसिष्ठ घड़े बघावु थे। देवताओंको दुरती जानकर उन्होंने उन्हें अग्नय-दान दे

दिया और उन खलीनामवाले समस्त दानवोंको अपने तेजसे अनायास ही भस्म कर डाला। फिर वे महातपस्वी मुनि कैलास-भागसे बहती हुई गङ्गानदीको मानसरोवरमें ले आये। गङ्गाजीने वहाँ आते ही उस सरोवरका बाँध तोड़ डाला। उससे जो स्रोत बहकर निकला वही सरयू नदीके नामसे प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थानपर खली नामके दानव मारे गये, उसे आज भी ‘खलिन’ के नामसे पुकारा जाता है। इस प्रकार महामुनि वसिष्ठने इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा की और ब्रह्माजीसे वरदान पाये हुए दैत्योंको भी नष्ट कर दिया। यह वसिष्ठजीके कर्मका वर्णन किया गया है। कार्तवीर्य! यदि इनसे भी बड़ा कोई क्षत्रिय हो तो बता।’

वायुदेवताके इस प्रकार कहनेपर भी कार्तवीर्य अर्जुन चुप ही रहा, तब वायुने फिर कहा—‘राजन्! अब तू महात्मा अत्रिके अलौकिक कर्मकी कथा सुन। एक बार देवता और दानवोंने युद्ध हुआ, उसमें राहुने सूर्य और चन्द्रमाको बाणोंसे मारकर धायल कर दिया, इससे उनका तेज शान्त पड़ गया और वहाँ घोर अन्धकार छा गया। फिर तो अंधेरेमें सूक्ष्म न पड़नेके कारण देवतालोग दानवोंके हाथसे मारे जाने लगे। उन महाबली असुरोंके प्रहारसे आहत होनेके कारण देवताओंकी प्राणशक्ति क्षीण हो चली और वे भागकर तपस्यामें संलग्न हुए विप्रवर अत्रि मुनिके पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेवाले उन महर्षिसे कहा—‘प्रभो! असुरोंने चन्द्रमा और सूर्यको अपने बाणोंसे बाँध डाला है और अब घोर अन्धकार छा जानेके कारण हम भी शत्रुओंके हाथसे मारे जा रहे हैं। हमें तनिक भी शान्ति नहीं मिलती, आप कृपा करके इस भयसे हमारी रक्षा कीजिये।’ अत्रिने कहा—‘मैं किस तरह आपलोगोंकी रक्षा करूँ?’ देवता बोले—‘आप अन्धकारको नष्ट करनेवाले चन्द्रमा और सूर्यका स्वरूप धारण कीजिये और हमारे शत्रुओंका नाश कर डालिये।’ उनके ऐसा कहनेपर अत्रिने अन्धकार दूर करनेवाले चन्द्रमाका रूप धारण किया और देवताओंकी और शान्तभावसे देखा। उस समय चन्द्रमा और सूर्यकी प्रभा मन्द देखकर अत्रिने अपनी तपस्यासे प्रफास फैलाया और सम्पूर्ण जगत्की अन्धकारशून्य एवं आलोकित कर दिया। उन्होंने अपने तेजसे ही देवताओंके शत्रुओंको परास्त कर दिया। उन महान् असुरोंकी अत्रिके तेजसे दग्ध होते देख देवताओंने भी पराक्रम करके उन्हें मार डाला। इस प्रकार अत्रिने सूर्यको तेजस्वी बनाया, देवताओंका उद्धार किया और असुरोंको नष्ट कर दिया। अत्रिमुनि गायत्रीका जप करनेवाले, भृगुशाला पहननेवाले और फलाहार करके रहनेवाले तेजस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने जो

सामर्थ्यं दिलाया, जैसा महान् कर्म किया, उसपर तू दृष्टि डाल और बता, उनसे भी श्रेष्ठ कोई शक्ति है ?'

यह सुनकर भी कार्तवीर्यने कोई उत्तर नहीं दिया, तब वायुदेवता पुनः कहने लगे—'राजन् ! अब महात्मा ध्ववनके किये हुए महान् कर्मका श्रवण कर । पूर्वकालमें ध्ववन मुनिने अश्विनोकुमारोंको सोम-पान करानेकी प्रतिज्ञा करके इन्द्रसे कहा—'देवराज ! आप दोनों अश्विनोकुमारोंको देवताओंके साथ सोम-पानमें सम्मिलित कर लीजिये ।'

इन्द्र बोले—विप्रवर ! अश्विनोकुमार हमलोगोंमें निन्द्य माने गये हैं, फिर वे सोम-पानके अधिकारी बंसे हो सकते हैं ? वे देवताओंके सम्मानपात्र नहीं हैं, अतः उनके लिये इस तरहकी बात न कीजिये । हमलोग अश्विनोकुमारोंके साथ सोम-पान करना नहीं चाहते । इसके सिवा और जिस कामके लिये आप आशा करें, उसे मैं पूर्ण करूँगा ।

ध्ववनने कहा—'देवराज ! अश्विनोकुमार भी सुपुंके पुत्र होनेके कारण देवता ही हैं । अतः वे आप सब लोगोंके साथ सोम-पानके अवश्य अधिकारी हैं । सब देवता मेरी बात मान लें, ऐसा करनेमें ही आपलोगोंको भलाई है ; अन्यथा इसका परिणाम अच्छा न होगा ।

इन्द्र बोले—द्विजभेष्ट ! मैं तो अश्विनोकुमारोंके साथ सोम-पान नहीं करूँगा ।

ध्ववनने कहा—इन्द्र ! यदि तुम सीधी तरह मेरी बात नहीं मानोगे तो यद्यपि तुम्हारा अभिमान चूर्ण करके मैं जबबंस्ती उनके साथ तुम्हें सोम-पान कराऊँगा ।

तदनन्तर, ध्ववन मुनिने अश्विनोकुमारोंके हितके लिये तत्काल धमका आरम्भ किया । यह देखकर इन्द्र क्रोधसे मूर्च्छित हो उठे और हाथमें एक विशाल पर्वत तथा बखर लिये हुए मुनिकी ओर बढ़े । उस समय उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो रही थीं । महातपस्वी ध्ववनने इन्द्रको अपने ऊपर आक्रमण करते देख उनके ऊपर पानीका एक छँदा डाला और बखर तथा पर्वतसहित उन्हें जड़वत् बना दिया । फिर

उन्होंने अग्निमें आहुति टालकर इन्द्रके लिये एक अल्पत भयंकर शत्रु उत्पन्न किया, जिसका नाम मरु था । यह मूँह फंलाये खड़ा हो गया । उसकी टोंट्रीका भाग जमीनमें सटा हुआ था और ऊपरवाला भेड़ आकारा घू रहा था । उसके मूँहके भीतर एक हजार बाँत थे, जो सी-सी योजन ऊँचे दिखायी देते थे तथा उसकी भयंकर आँसु बो-री सी योजन संबी थीं । उस समय इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता उमकी जिह्वाकी जड़में आ गये ; फिर तो भयके मुदमें पड़े हुए देवताओंने आपसमें सलाह करके इन्द्रसे बर्हा—'देवराज ! आप विप्रवर ध्ववनको प्रणाम कीजिये (इन्ने विरोध करना अच्छा नहीं है) । हमलोग निःसंकोच होकर अश्विनो-कुमारोंके साथ सोम-पान करेंगे ।' यह सुनकर इन्द्रने महामुनि ध्ववनके चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली । फिर ध्ववनने अश्विनोकुमारोंको देवताओंके साथ सोम-पानका भागी बनाया और अपना मत समाप्त कर दिया । इसके बाद उन्होंने जुआ, शिकार, मद्य-पान और स्त्रियोंमें मदको बाँट दिया । इन दोषोंमें आसक्त हुए मनुष्योंका अन्वय ही नाश हो जाता है, अतः इनका दूरसे ही त्याग कर देना चाहिये । राजन् ! यह मैंने तुम्हसे ध्ववनमुनिके महान् कर्मका वर्णन किया है । बता, उनसे भी बढ़कर कोई शक्ति है ?

श्रीभूमजी कहते हैं—सुधिष्ठिर ! जब वायुने इस प्रकार ब्राह्मणोंका महत्त्व बतलाया तो कार्तवीर्य अर्जुनने उनके बचनोंकी प्रशंसा करके इस प्रकार उत्तर दिया—'प्रभो ! मैं सब प्रकारसे और सदा ब्राह्मणोंके ही लिये जीवन धारण करता हूँ, ब्राह्मणोंका भक्त हूँ और प्रतिदिन ब्राह्मणोंको प्रणाम करता हूँ । विप्रवर दसानेपजीकी कृपासे मुझे यह बात, उत्तम कीर्ति और महान् धर्मकी प्राप्ति हुई है । वायुदेव ! आपने मुझसे ब्राह्मणोंके अवमूल कर्मोंका वर्णन किया है और मैंने ध्यान देकर उन सबको श्रवण किया है ।'

धायने कहा—राजन् ! तू शक्ति-धर्मके अनुसार ब्राह्मणोंकी रक्षा और इन्द्रियोंका निग्रह कर ।

श्रीभूमजोके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन

सुधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! आप कौन-सा साम देसकर उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले ब्राह्मणोंकी सदा पूजा करते हैं ?

श्रीभूमजीने कहा—सुधिष्ठिर ! वे महाव्रतधारी भगवान् श्रीकृष्ण ब्राह्मणकी पूजासे होनेवाले सामका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं । अतः वे ही तुम्हसे इस विषयकी सारी

बातें बतावेंगे । आज मेरा बल, मेरे ज्ञान, मेरी धानी, मेरा मन और मेरे दोनों नेत्र शिथिल-ने हो रहे हैं तथा मेरा ज्ञान भी विमृष्ट हो गया है । जान पड़ता है अब मेरा शरीर घटनेमें अधिक विलम्ब नहीं है । पुराणोंमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके धर्म बतलाये गये हैं तथा सब धर्मोंके लोभ-जित-जित धर्मोंकी उपासना करते हैं, यह सब मैंने सुन्दर सुना दिया

है। अब जो कुछ बाकी रह गया हो उसको भगवान् श्रीकृष्णसे सीखना। इन श्रीकृष्णका जो स्वरूप है और जो इनका पुरातन बल है, उसे ठीक-ठीक में जानता हूँ। भगवान् श्रीकृष्ण अप्रमेय हैं, अतः तुम्हारे मनमें संवेह होनेपर ये ही तुम्हें धर्मका उपदेश करेंगे। श्रीकृष्णने ही इस पृथ्वी, आकाश और स्वर्गकी सृष्टि की है। ये ही भयंकर बलवाले वाराहके रूपमें प्रकट हुए थे तथा इन्हीं पुराणरूपने पर्वतों और विशाओंको उत्पन्न किया है। अन्तरिक्ष, स्वर्ग, चारों दिशाएँ और चारों कोण—ये सब भगवान् श्रीकृष्णसे नीचे हैं। इन्हींसे इस सृष्टिकी परम्परा प्रचलित हुई है तथा इन्होंने ही इस प्राचीन विश्वका निर्माण किया है। सृष्टिके आरम्भमें इनकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ और उसीके भीतर अमित तेजस्वी ब्रह्माजी स्वतः प्रकट हुए। इन्होंने ही प्राचीन कालमें वैद्योंका संहार किया और ये ही वैद्य-सभ्राट् बलिके रूपमें प्रकट हुए। समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति इन्हींसे हुई है। भूत और भविष्य इनका ही स्वरूप है और ये ही सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करते हैं। जब धर्मका ह्रास होने लगता है, उस समय ये श्रीकृष्ण देवताओं तथा मनुष्योंके वंशमें अवतार लेकर स्वयं धर्मका आचरण करते हुए उसकी स्थापना और पर-अपर—सब लोकोंकी रक्षा करते हैं। कुन्तीनन्दन ! ये त्याज्य वस्तुका त्याग करके असुरोंका वध करनेके लिये स्वयं कारण बनते हैं। कार्य और कारण इन्हींके स्वरूप हैं। विश्वकर्मा, विश्वरूप, विश्वभोक्ता, विश्वविधाता और विश्व-विजेता भी ये ही हैं। ये ही एक हाथमें त्रिशूल और दूसरे हाथमें रथसे भरा खप्पर लिये हुए विकराल रूप धारण करते हैं। अपने नाना प्रकारके चरित्रोंसे जगत्में विख्यात हुए इन श्रीकृष्णकी ही सब लोग स्तुति करते हैं। संकड़ों गन्धर्व, अप्सराएँ तथा देवता सदा इनकी सेवामें उपस्थित रहते हैं। राक्षस भी इनसे सम्मति लिया करते हैं। एकमात्र ये ही धनके रक्षक और विश्वविजयी हैं। यज्ञमें स्तोतालोग इन्हींको रतुति करते हैं। सामगान करनेवाले विद्वान् रथन्तर सामके द्वारा इन्हींका गुण-गान करते हैं। वेदवेत्ता ब्राह्मण वेदके मन्त्रोंसे इन्हींका स्तवन करते हैं और अश्वर्ष्यलोग यज्ञमें इन्हींको हविष्यका भाग देते हैं। पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग-लोक सब इन सनातन पुरुष श्रीकृष्णके वशमें रहते हैं। ये ही सर्वत्र विचरनेवाले वायु हैं, सर्वव्यापक हैं और प्रचण्ड किरणोंसे सुशोभित आदिदेव सूर्य हैं। इन्होंने ही समस्त असुरोंपर विजय पायी है तथा इन्होंने ही अपने तीन पगोंसे तीनों लोकोंको नाप लिया था। ये श्रीकृष्ण सम्पूर्ण देवताओं, पितरों और मनुष्योंके आत्मा हैं। इन्हींको याज्ञिक पुरुषोंका यज्ञ कहा गया है। ये ही दिन और रातका विभाग करते हुए

सूर्यरूपमें उदित होते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हींके दो मार्ग हैं। ये प्रत्येक मासमें यज्ञ करते हैं और वेदज्ञ ब्राह्मण इन्हींके गुण गाते हैं। ये महतेजस्वी और सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले श्रीकृष्ण अकेले ही सम्पूर्ण जगत्को धारण करते हैं। युधिष्ठिर ! तुम इन्हींको अन्धकारनाशक सूर्य समझो। ये पञ्चमहाभूतोंके केन्द्र हैं। इन्होंने ही आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, अन्तरिक्ष, वन और पर्वतोंकी सृष्टि की है। ये इन्द्रियोंके नियन्ता और अत्यन्त प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी हैं। बड़े-बड़े यज्ञोंमें विप्रोंद्वारा ऋग्वेदकी सहस्रों पुरातन ऋचाओंसे एकमात्र इन्हींकी स्तुति की जाती है। इन श्रीकृष्णके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो महतेजस्वी दुर्वासाको अपने घरमें ठहरा सके। इनको ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं। ये विश्वके रचयिता हैं और अपने स्वरूपसे ही अनेकों पदार्थोंको उत्पन्न करते रहते हैं। ये देवताओंके देवता होकर भी वेदोंका अध्ययन और प्राचीन विधियोंका पालन करते हैं। लौकिक और वैदिक कर्मका जो फल है, वह सब श्रीकृष्ण ही हैं। ये ही सम्पूर्ण लोकोंकी शुक्ल ज्योति हैं तथा तीनों लोक, तीनों लोकपाल, त्रिविध अग्नि, तीनों व्याहृतियाँ और सम्पूर्ण देवता भी ये देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ही हैं। संवत्सर, ऋतु, पक्ष, दिन-रात, कला, काष्ठा, मात्रा, मूर्त, लव और क्षण—इन सबको श्रीकृष्णका ही स्वरूप समझो। चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अमावास्या, पूर्णिमा, नक्षत्र, योग और ऋतु—इन सबकी उत्पत्ति श्रीकृष्णसे ही हुई है। रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, प्रजापति, देवमाता अदिति और सप्तर्षि भी श्रीकृष्णसे ही प्रकट हुए हैं। ये विश्वरूप श्रीकृष्ण ही वायुरूप धारण करके संसारको चेष्टा प्रदान करते, अग्निरूप होकर सबको भस्म करते, जलका रूप धारणकर जगत्को डुबाते और ब्रह्मा होकर सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते हैं। ये स्वयं वेद्यस्वरूप होकर भी वेदवेद्य तत्त्वको जाननेका प्रयत्न करते हैं। विधिरूप होकर भी विहित कर्मोंका आश्रय लेते हैं। ये ही धर्म, वेद और बलको विषय करनेवाले हैं। तुम समस्त चराचर जगत्की श्रीकृष्णका ही स्वरूप समझो। ये परम ज्योतिर्मय सूर्यका रूप धारण करके पूर्व दिशामें प्रकट होते हैं, जिनकी प्रभासे सम्पूर्ण विश्व आलोकित हो उठता है। ये समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिके स्थान हैं। इन्होंने पूर्वकालमें पहले जलकी सृष्टि करके फिर सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न किया था। ऋतु, नाना प्रकारके उत्पात, अनेकों अद्भुत पदार्थ, मेघ, बिजली, ऐरावत और सम्पूर्ण चराचर जगत्की इन्हींसे उत्पत्ति हुई है। इन्हींको समस्त जगत्का आत्मा—विष्णु समझो। ये विश्वके आवासस्थान और निर्गुण हैं। इन्हींको वासुदेव, संकर्षण,

प्रद्युम्न और अनिष्ट कहते हैं। ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आत्माके अधीन रखते हैं। इन्होंने ही इस विश्वको उत्पन्न किया है और ये ही आत्मशक्तिते सबको जीवन प्रदान करते हैं। देवता, अमुर, मनुष्य, लोका, ऋषि, पितर, प्रजा और सम्पूर्ण प्राणियोंको इन्होंने ही जीवन मिलता है। ये ही सदा सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि तथा पालन करते हैं। शुभ-अशुभ और स्थावर-जङ्गमरूप यह सारा जगत् श्रीकृष्णते ही उत्पन्न हुआ है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब श्रीकृष्णका ही स्वरूप है। प्राणियोंका अन्तकाल आनेपर साक्षात् श्रीकृष्ण ही मृत्युरूप बन जाते हैं। ये धर्मके सनातन रक्षक

हैं। जो बात भीत चुको है तथा जिसका भयो पता नहीं है, उन सबके कारण श्रीकृष्ण ही हैं। तीनों लोकोंमें जो कुछ है वह सब श्रीकृष्णका ही स्वरूप है। श्रीकृष्णते मित्र कोई यस्तु है, ऐसा सोचना अपनी विपरीत बुद्धिका परिचय देना है। भगवान् श्रीकृष्णकी ऐसी ही महिमा है, बल्कि वे इससे भी अधिक प्रभावशाली हैं। ये परम पुण्य मारापण और विकाररहित हैं। ये ही स्थावर-जङ्गमरूप जगत्के आवि, मध्य और अन्त हैं। संसारमें जन्म लेनेवाले प्राणियोंके कारण भी ये ही हैं। इन्होंने ही अविनाशो परमात्मा कहते हैं।

श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मणोंकी महिमा तथा भगवान् शंकरके माहात्म्यका वर्णन

मुष्टिष्ठिरने पूछा—मधुसूदन ! ब्राह्मणकी पूजा करनेसे क्या फल मिलता है ? इसका आप ही वर्णन कौजिये; क्योंकि आप इस विषयको अच्छी तरह जानते हैं और पितामह भी आपको इस विषयका ज्ञाता मानते हैं।

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! मैं ब्राह्मणोंके गुणोंका यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिये। एक दिनकी बात है, ब्राह्मणोंने मेरे पुत्र प्रद्युम्नको कुपित कर दिया था। उस वकत मैं द्वारकामें ही था। प्रद्युम्नने मुझे आकर पूछा—पिताजी ! ब्राह्मणकी पूजा करनेसे क्या फल होता है ? वे इस लोक और परलोकमें भी क्यों ईश्वर माने जाते हैं ? इस विषयमें मुझे बड़ा संवेह है। अतः आप इसका स्पष्टरूपसे वर्णन कौजिये। प्रद्युम्नके ऐसा कहनेपर मैंने उसको जो उत्तर दिया, उसे आप एकाग्रचित होकर सुनिये। मैंने कहा—‘वशिष्ठीतन्वन् ! ब्राह्मणोंके राजा चन्द्रमा हैं, इसलिये वे इहलोक और परलोकमें भी सुख-दुःख देनेमें समर्थ होते हैं। ब्राह्मणोंमें शान्त भावकी प्रधानता होती है, इसमें तनिक भी अज्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणोंकी पूजासे आयु, कीर्ति, धन और बलकी वृद्धि होती है। सम्पूर्ण लोक और लोकेश्वर ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं। धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके लिये, मोक्षकी प्राप्तिके लिये और धन, लक्ष्मी तथा आरोग्यकी उपलब्धिके लिये एवं देवता और पितरोंकी पूजाके समय ब्राह्मणोंको संतुष्ट करना हम-लोगोंके लिये बहुत आवश्यक है, ऐसी वशामें मैं उनका आदर क्यों न करूँ ? ब्राह्मण इस लोक तथा परलोकमें भी महान् माने गये हैं। वे सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं। यदि क्रोधमें भर जायँ तो वे इस जगत्को मत्स्य कर सकते हैं, दूसरे-दूसरे लोक और लोकेश्वरोंकी सृष्टि कर सकते हैं; अतः तेमन्त्रों

पुण्य ब्राह्मणोंके महत्त्वको अच्छी तरह जानकर भी उनके साथ सद्बर्ताव क्यों न करेंगे ?’

राजन् ! इस प्रकार प्रद्युम्नके प्रश्नपर मैंने उसे उत्तम ब्राह्मणका माहात्म्य बतलाया था; अतः आप भी सदा मोटे बदन बोलकर और नाना प्रकारके दान देकर महान् सौभाग्यशाली ब्राह्मणोंकी पूजा करते रहें। भोग्यभोगे भेरे विषयमें जो कुछ कहा है, वह सब सत्य ही है। अब मैं भगवान् शंकरका माहात्म्य बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिये। विद्वान् पुण्य महादेवजीकी अग्नि, स्वप्न, गृहेश्वर, एकात्म, त्र्यम्बक, विश्वरूप और शिव आदि अनेकों नामोंसे पुकारते हैं। वेदमें उनके दो स्वरूप बताये गये हैं, जिनमें देवदेवता ब्राह्मण जानते हैं। उनका एक स्वरूप तो घोर है और दूसरा शिव है। इन दोनोंके भी अनेकों भेद हैं। इनकी जो घोर मूर्ति है, वह भय उपमानेवाली है। उसके अग्नि, विद्युत् और सूर्य आदि अनेकों रूप हैं। इससे मित्र भी शिव नामवाली मूर्ति है, वह परम शान्त एवं मङ्गलप्रदो है। उसके धर्म, जल और चन्द्रमा आदि कई रूप हैं। महादेवजीके आधे शरीरको अग्नि और आधेको सोम (चन्द्रमा) कहते हैं। उनको शिवमूर्ति ब्रह्मर्षयोंका पालन करती है और जो अत्यन्त घोर मूर्ति है, वह जगत्का संहार करती है। उनमें महत्त्व और ईश्वरत्व होनेके कारण वे महाेश्वर कहलाते हैं। वे सबको सृष्ट करकेवाले, अत्यन्त तीक्ष्ण, उग्र और प्रतापी हैं, इसीसे उन्हें शर कहते हैं। वे देवताओंमें महान् हैं और इस महान् विश्वकी रक्षा करते हैं, इसलिये महादेव कहलाते हैं। सब प्रकारके कर्मोंद्वारा सदा सब लोगोंकी उन्नति करते और सबका कल्याण चाहते हैं, इस कारण उनका नाम शिव है। वे ऊर्ध्वभागमें स्थित होकर देहाधारियोंके प्राणोंका नाश करते हैं और सदा

स्थिर रहते हैं, इस कारण उन्हें स्याणु कहा गया है। भूत, भविष्य और वर्तमान कालमें स्यावर और जङ्गलोंके आकारमें उनके अनेकों रूप प्रकट होते हैं, इसलिये वे बहुरूप कहलाते हैं। उनमें सम्पूर्ण देवताओंका निवास है, इससे उनको विश्वरूप कहते हैं। उनके नेत्रसे तेज प्रकट होता है और उनके नेत्रोंका अन्त नहीं है, इसलिये वे सहस्राक्ष, अजिताक्ष और सर्वतोऽक्षिमय कहलाते हैं। वे सब प्रकारसे पशुओंका पालन करते और उनके साथ रहनेमें सुख मानते हैं तथा पशुओंके अधिपति हैं, इसलिये उनका नाम पशुपति है। मनुष्य यदि ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए प्रतिदिन स्थिर शिवलिङ्गकी पूजा करता है तो इससे महात्मा शंकरको बड़ी प्रसन्नता होती है और वे संतुष्ट होकर अपने नपतोंको सुख देते हैं। भगवान् शंकर ही अग्निरूपसे शबको दग्ध करते हुए भ्रमशान-भूमिमें निवास करते हैं। जो लोग वहाँ उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वीरोंको प्राप्त होनेवाले उत्तम लोक मिलते हैं। वे प्राणियोंके शरीरमें रहनेवाले और उनकी मृत्युरूप हैं तथा वे ही प्राण, अपान आदि वायुके रूपसे देहके भीतर निवास करते हैं। उनके अनेकों भयंकर एवं उद्दीप्त रूप हैं, जिनकी

जगत्में पूजा होती है। विद्वान् ब्राह्मण ही उन सब रूपोंको जानते हैं। उनकी महत्ता, व्यापकता तथा दिव्य कर्मोंके अनुसार देवताओंमें उनके बहुतसे यथार्थ नाम प्रचलित हैं। वेदके शतशुद्धिय-प्रकरणमें उनके संकड़ों उत्तम नाम हैं, जिन्हें वेदवेत्ता ब्राह्मण जानते हैं। महर्षि व्यासने भी उनका स्तवन किया है। ये सम्पूर्ण लोकोंको अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। यह महान् विश्व उन्हींका स्वरूप बताया गया है। ब्राह्मण और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं। वे देवताओंमें प्रधान हैं। उन्होंने अपने मुखसे अग्निको उत्पन्न किया है। वे नाना प्रकारकी ग्रह-बाधाओंसे ग्रस्त प्राणियोंको दुःखसे छुटकारा दिलाते हैं। पुण्यात्मा और शरणागतवत्सल तो वे इतने हैं कि शरणमें आये हुए किसी भी प्राणीका त्याग नहीं करते। वे ही मनुष्योंको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और सम्पूर्ण कामनाएँ प्रदान करते और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं। इन्द्र आदि देवताओंके पास उन्हींका दिया हुआ ऐश्वर्य है। तीनों लोकोंके शुभाशुभपर उनकी सदा ही दृष्टि रहती है। समस्त कामनाओंके अधीश्वर होनेके कारण उन्हें ईश्वर कहते हैं और महान् लोकोंके ईश्वर होनेसे उनका नाम महेश्वर हुआ है।

धर्मके विषयमें आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, धर्म-अधर्मके फल, सज्जन-दुर्जनोंके लक्षण और शिष्टाचारका वर्णन

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका उपदेश समाप्त होनेपर युधिष्ठिरने शान्तनुनन्दन भौष्मसे पुनः प्रश्न किया—‘पितामह ! धार्मिक विषयका निर्णय करनेके लिये प्रत्यक्ष प्रमाणका आश्रय लेना चाहिये या आगमका ? इन दोनोंमें किससे वास्तविक निर्णय हो सकता है ?’

भौष्मजीने कहा—बेटा ! तुमने ठीक प्रश्न किया है, इसका उत्तर देता हूँ, तुम—धार्मिक विषयमें संदेह होना सहज है, किंतु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है। प्रत्यक्ष और आगम दोनोंहीका कोई अन्त नहीं है। दोनोंमें ही संदेह एष्टे होते हैं। अपनेको बुद्धिमान् समझनेवाले हेतुपायी तार्किक प्रत्यक्ष कारणकी ओर ही वृष्टि रखकर परोक्ष वस्तुका अभाव मानते हैं, सत्य होनेपर भी उसके अस्तित्वमें संदेह करते हैं। किंतु वे बालक हैं, अहंकारवश अपनेको पण्डित मानते हैं; अतः उनका पूर्वोक्त निरचय फदापि युक्तितंगत नहीं है (आकाशमें नीलिमा प्रत्यक्ष दिखायी देनेपर भी वह मिथ्या ही है, अतः केवल प्रत्यक्षके

बलसे सत्यका निर्णय नहीं किया जा सकता। धर्म, ईश्वर और परलोक आदिके विषयमें शास्त्र-प्रमाण ही श्रेष्ठ है; क्योंकि अन्य प्रमाणोंकी वहाँतक पहुँच नहीं हो सकती। यदि कहो कि एकमात्र ब्रह्म जगत्का कारण कैसे हो सकता है ? तो इसका उत्तर यह है—‘तुम आलस्य छोड़कर दीर्घकालतक योगका अभ्यास करो और तत्त्वका साक्षात्कार करनेके लिये निरन्तर प्रयत्नशील बने रहो, तभी इसका ज्ञान हो सकता है। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं तभी उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है। वह ज्ञान ही सम्पूर्ण जगत्के लिये उत्तम ज्योति है। कोरे तर्कसे जो ज्ञान होता है, वह वास्तवमें ज्ञान नहीं है, अतः उसे प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये। जिसका वेदके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो, उस ज्ञानका परित्याग कर देना ही उचित है।

उपलब्ध होते हैं। इनमें कौन-सा प्रबल है? यह बतानेकी कृपा कीजिये।

भौध्मजीने कहा—बेटा! जब बलवान् पुण्य बुराचारो हीकर धर्मको हानि पहुँचाने लगते हैं तो साधारण मनुष्योंके द्वारा उसको रक्षाका यत्न होनेपर भी समयानुसार उसमें विघ्नति आ ही जाती है। फिर तो घात-कृतसे ढके हुए कुण्डोंकी तरह अधर्म ही धर्मका पोला पहनकर सामने आता है। इससे साधारणका ह्रास होने लगता है और माघाचर्यो, धर्म-द्रोही तथा वैच-शास्त्रोंका त्याग करनेवाले मन्दबुद्धि पुण्य धर्मको मर्यादा भंग करने लगते हैं। उस व्यवस्थामें धर्मके स्वरूपके विषयमें बड़ा संदेह होता है, ऐसी स्थितिमें जो साधु-सङ्गके लिये नित्य उत्कण्ठित रहते हों, जिनकी बुद्धि आगम-प्रमाणकी ही श्रेष्ठ मानती हो, जो सदा संतुष्ट रहते तथा सोम-भीहूका अनुसरण करनेवाले अर्थ और कामकी उपेक्षा करके धर्मको ही उत्तम मानते हों, ऐसे महात्मा पुरुषोंके पास जाकर तुम्हें प्रश्न करना चाहिये। उन संतोंके सदाचार, यथा और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मके अनुष्ठानमें कभी कोई अन्तर नहीं आता। उनमें आचार, उसको धरतेवाले वैच-शास्त्र तथा धर्म—इन तीनोंकी एकता होती है।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! मेरी बुद्धि पुनः संशयके अपार समुद्रमें डूब रही है। मैं इसके पार जाना चाहता हूँ, किन्तु डूँडनेपर भी कोई कूल-किनारा नहीं बिलखी देता। यदि प्रत्यक्ष, आगम और सिद्धाचार—ये तीनों ही प्रमाण हैं तो इनकी तो पृथक्-पृथक् उपलब्धि हो रही है और धर्म एक है; फिर ये तीनों कैसे धर्म हो सकते हैं?

भौध्मजीने कहा—राजन्! यदि तुम प्रमाण-भेदसे धर्मको तीन प्रकारका मानते हो तो तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। यह निश्चय संभ्रमो कि धर्म एक ही है। तीनों प्रमाणोंके द्वारा एक ही धर्मका दर्शन होता है। मैं यह नहीं मानता कि ये तीनों प्रमाण भिन्न-भिन्न धर्मका प्रतिपादन करते हैं। उक्त तीनों प्रमाणोंके द्वारा जो धर्ममय मार्ग बतलाया गया है, उसीपर चलते रहो। तर्कका सहारा लेकर धर्मकी जिज्ञासा करना कदापि उचित नहीं है। मेरी बातमें तर्क भी संदेह न करो। अंधों और मूंगोंकी तरह निःशब्द होकर, मैं भ्रंश करूँ उसके अनुसार आचरण करो। अजातशत्रु! अहिंसा, सत्य, श्रेयका अभाव और दान—ये चार सदातन धर्म हैं, इनका सदा ही सेवन करो। तुम्हारे पिता-पितामह आदिने ब्राह्मणोंके साथ भ्रंश बर्ताव किया है, उसीका तुम भी अनुसरण करो; क्योंकि ब्राह्मण धर्मके उपदेशक हैं। जो मनुष्य प्रमाणको भी अप्रमाण बनाता है, वह अज्ञानी है। उसकी बातको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वह केवल

विवाद करनेवाला है। तुम ब्राह्मणोंका ही विशेष आदर-सत्कार करके उनकी सेवामें लगे रहो और यह जान लो कि ये सम्पूर्ण लोक ब्राह्मणोंके ही आचारपर टिके हुए हैं।

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! जो मनुष्य धर्मको निन्दा करते हैं और जो धर्मका आचरण करते हैं, वे किन लोकोंमें जाते हैं? अथ इस विषयका धर्मेन कीजिये।

भौध्मजीने कहा—युधिष्ठिर! जो मनुष्य रजोगुण और तमोगुणसे विलसित होनेके कारण धर्मसे द्रोह करते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं तथा जो सदा सरसता और सत्यभावमें तत्पर होकर धर्मका पालन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गांतरिका सुख भोगते हैं। आचार्यकी सेवा करनेसे निरर्थक-मात्र धर्मका हो सहारा रहता है तथा जो सदा धर्ममें स्थित रहते हैं, वे वैश्लोकमें जाते हैं। मनुष्य हों या देवता, जो शरीरको कष्ट देकर भी धर्माचरणमें लगे रहते हैं तथा सोम और द्वेषका त्याग कर देते हैं, उन्हें सुखकी प्राप्ति होती है। मनोयी पुण्य धर्मको ही ब्रह्मज्ञीका श्रेष्ठ पुत्र कहते हैं। जैसे खानेवालोंका मन पके हुए फलको अधिक पसंद करता है, उसी प्रकार धर्मस्थित पुण्य धर्मकी ही उपालास करते हैं। युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! साधु पुण्य कौन-से काम करते हैं? तथा सज्जन और बुजुर्ग मनुष्य कैसे होते हैं?

भौध्मजीने कहा—युधिष्ठिर! बुजुर्ग पुण्य बुराचारो, कुचर्ये (उदृष्ट) और दुर्मुख (कटु वचन बोलनेवाले) होते हैं तथा सज्जन मनुष्य सुशील हुआ करते हैं। अब सिद्धाचारकी बातें सुनो। धर्मरत्ना पुण्य सङ्करपर, भौतिकी धोषमें तथा अनाजकी डेरीपर मल-मूत्रका त्याग नहीं करते। सत्पुण्य देवता, पितर, भूत (प्राणी), प्रतिपि और कुटुम्बी—इन पाँचोंको भोजन देकर श्रेय अन्नका स्वयं आहार करते हैं, भोजन करते समय बातचीत नहीं करते तथा भोगे हाथ लिये शयन नहीं करते हैं। जो भोग अर्धन, वृषभ, देवता, गीतासा, ब्राह्मण, धार्मिक और बृद्ध पुरुषोंकी प्रदक्षिणा करते हैं, जो बड़े-बड़े, धोमसे कष्ट पाते हुए मनुष्यों और स्त्रियोंको तथा अनेकों गाँवोंके अधिपति, ब्राह्मण, गौ और राजाको सामनेसे आते बेलकर जानेके लिये मार्ग देते हैं, उन सबको साधु पुण्य समझना चाहिये। सत्पुण्यको चाहिये कि वह सब अतिपिपे, सेवकों, स्वजनों तथा शरण चाहनेवाले मनुष्योंकी स्वागतपूर्वक रक्षा करे। देवताओंके मनुष्योंके लिये सबदे और सायंकाल दो ही समय भोजन करनेका विधान किया है—शोचमें भोजन करनेकी विधि नहीं देती जाती। इस नियमका पालन करनेसे उपवासका ही फल होता है। जो पुण्य शत्रु-कालके अतिस्थित समयमें हजोके साथ समागम नहीं करता, उसके द्वारा ब्रह्मपदका ही पालन होता है। अमृत, ब्राह्मण

एक समान हैं, अतः गो और ग्राह्योंका यजन करना चाहिये। मनुष्य स्वदेशमें ही उसके पास कोई अतिथि या जाय तो उसे गुरने जिस कामके लिये जाना बी हो, उसे सूचित कर देना चाहिये। गुरने आनेपर और उनकी विधिबन्त पूजा करके बैठनेके बाद गुरनी पूजा करनेसे आयु, यश और सखी-वृद्धि होती है। बृद्ध पुरुषोंका कभी अपमान न होने का काम करनेके लिये न भेजे तथा यदि बृद्ध पुरुष स्वयं भी बंठा न रहे, ऐसा करनेसे मनुष्यकी आयु होती। नंगा स्त्री और नंगे पुरुषोंके ऊपर दृष्टि न डालने और भोजन—ये दोनों कार्य सदा एकान्त में हृदय ही अधिक पवित्र है, जानोंमें परमात्माका और प्रातःकालमें बृद्ध पुरुषोंकी बातें सुननी चाहिये। सदा बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें लगा रहता है उसे शास्त्रीय न प्राप्त होता है। स्वाध्याय और भोजनके समय दाहिना पक्ष धारण करना चाहिये तथा मन, वाणी और इन्द्रियोंको सदा य उठाना चाहिये तथा अष्टके बंगसे बनाये हुए लीर, अपने अधीन रखना चाहिये। अष्टके बंगसे बनाये हुए लीर, हनुवा, लिचवी और हृदय आदिके द्वारा देवताओं तथा पितरोंका अष्टकाश्राद्ध करना चाहिये। नवग्रहोंकी पूजा करनी चाहिये। मूँछ और दाढ़ी बनवाते समय मङ्गल-सूचक शब्दका उच्चारण करना, छींफनेवालेको (शतं जीव आदि कहकर) आग्नीर्वाह देना तथा रोगग्रस्त पुरुषोंका उनके बीर्घायु होनेकी शुभ कामना करते हुए अभिनन्दन करना चाहिये।

युधिष्ठिर ! तुम बड़े-से-बड़े संकटमें पड़नेपर भी किसी श्रेष्ठ पुरुषके प्रति 'तुम' का प्रयोग न करना। विद्वानके लिये तुम कहकर पुकारना अथवा उनका वध करना एक-सा ही माना गया है। जो अपने बराबरके हों, अपनेसे छोटे हों अथवा शिष्य हों, उनको 'तुम' कहनेमें कोई हर्ज नहीं है। पाप करनेवाले पुरुषका हृदय ही उसके पापको प्रकट कर देता है। बुराचारी मनुष्य जान-बूझकर किये हुए पापको भी दूसरोंसे छिपानेका प्रयत्न करते हैं, किन्तु महापुरुषोंके सामने अपने किये हुए पापको गुप्त रखनेके कारण वे नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य यह सोचकर अपने पापपर पर्दा डालना चाहते हैं कि मुझे पाप करते समय न मनुष्य देख पाते हैं न देवता, किन्तु यह उनकी भूल है, क्योंकि पापके द्वारा छिपाया हुआ पाप नये-नये पापकी ही वृद्धि करता है। जैसे नमककी डली जलमें डालनेसे गल जाती है, इसी प्रकार प्रायश्चित्त करनेसे तत्काल पापका नाश हो जाता है। इसलिये पापको छिपाना नहीं चाहिये; क्योंकि छिपानेसे वह बढ़ता है। यदि कभी पाप यन जाय तो उसे साधु पुरुषोंपर प्रकट कर देना चाहिये। वे उस पापको शान्त कर देते हैं। विद्वान् पुरुषोंका कहना है कि धर्म सम्पूर्ण प्राणियोंका हृदय है, इसलिये सबको धर्ममें ही लगाना चाहिये। मनुष्यको उचित है कि वह अकेला ही धर्मका आचरण करे; किन्तु धर्मध्वजी न बने। जो धर्मको उपभोगका साधन बनाते हैं—उसके नामपर जीविका कमाते हैं, वे धर्मके ध्वसायी हैं। धर्मका परित्याग करके देव-ताओंकी पूजा करे। छल-कपट छोड़कर गुदजनोंकी सेवामें सज्जना संग्रह करे।

भोगका शुभाशुभ कर्मोंकी सुख-दुःखकी प्राप्तिका कारण बतलाते हुए धर्मके अनुष्ठानपर जोर देना

युधिष्ठिरने कहा—पितामह ! माय्यहीन मनुष्य जन्तवान् हो तो भी उसे धन नहीं मिलता और जो भाय्ययान् है, यह चायक गयं बुझल होनेपर भी बहुत-सा धन प्राप्त कर लेता है। जयतक धनकी प्राप्तिका समय नहीं आता तबतक विशेष यत्न करनेपर भी कुछ हाथ नहीं लगता; किन्तु सामका समय आनेपर बिना यत्नके ही बहुत बड़ी सम्पत्ति मिल जाती है। यदि प्रयत्न करनेपर सफलता मिलनी अनिवायं होती तो मनुष्य सब कुछ पा लेता। किन्तु जो वस्तु प्रारब्धवशा मनुष्यके लिये अलभ्य है, वह उद्योग करनेपर भी नहीं मिल

सकती। बहुत-से मनुष्य यत्न करके भी विफल होते जाते हैं। कितने ही लोग धनके लिये अनेकों बार धर्म छोड़कर भी धनहीन ही रह जाते हैं। कितने ही अपने धर्मके कर्तव्यका पालन करके धनी हो जाते और कई निरविषयायी बने हैं। कोई मनुष्य नीतिशास्त्रका अध्ययन भी नीतित्त नहीं देखा जाता और कोई नीतित्त होनेपर भी मन्त्रीके पदपर पहुँच जाते हैं, इसका कारण क्या है? कभी-कभी विद्वान् और मूल्य दोनोंकी एक होती है। लोठी बुद्धिवाले मनुष्य धनवान् होते हैं।

(और अच्छी बुद्धि रखनेवाले विद्वान्को पूछी कोई भी नहीं मंतीब होतो)। यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य ही सुख पा लेता तो विद्वान्को जीविकाके लिये किसी मूर्ख धनीका आश्रय नहीं लेना पड़ता। जिस तरह वानो पीनेसे मनुष्यकी प्यास अवश्य बुझ जाती है, उसी प्रकार यदि विद्यासे अभीष्ट वस्तुकी सिद्धि अनिवार्य होती तो कोई भी मनुष्य विद्याकी उपेक्षा नहीं करता। जिसकी मृत्युका समय नहीं आया है, वह संकर्मों बाधेसे विधि जानेपर भी नहीं भरता, किन्तु जिसके जीवनकी अवधि पूरी हो चुकी है, वह एक तिनकेसे छू जानेपर भी प्राण त्याग देता है।

भीष्मजीने कहा—बेटा! यदि नाना प्रकारकी चेष्टा तथा अनेकों उद्योग करनेपर भी मनुष्यको धन न मिल सके तो उसे उग्र तपस्या करनी चाहिये; क्योंकि बीज बोये बिना अङ्कुर नहीं पैदा होता। मनीषी पुरुषोंका कहना है कि मनुष्य दान देनेसे उपभोगकी सामग्री पाता है। यज्ञ-सूक्तोंको सेवा करनेसे उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और अहिंसा-धर्मके पालनसे वह दीर्घजीवी होता है। इसलिये स्वयं दान दे, दूसरोंसे याचना न करे, धर्मनिष्ठ पुरुषोंको पूजा करे, मोठे बचन बोलें, सबका भला करे, शान्तभावसे रहे और किसी भी प्राणीको हिंसा न करे। युधिष्ठिर! डाँस, कोड़े और चींटी आदि जीवोंको उन-उन पौनियोंमें उत्पन्न करके सुख-दुःखकी प्राप्ति करानेमें उनका अपना किया हुआ कर्म ही कारण है, यह सोचकर अपनी बुद्धिको स्थिर करो (और सत्कर्ममें लग जाओ)। मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म करता तथा दूसरोंसे कराता है, उन दोनों प्रकारके कर्मोंसे शुभ कर्मका अनुष्ठान करके तो उसे प्रसन्न होना चाहिये और अशुभ कर्म ही जानेपर उससे किसी अच्छे फलको आशा नहीं रखनी चाहिये। जब धर्मका फल देखकर मनुष्यकी बुद्धिमें धर्मकी श्रेष्ठताका निरचय हो जाता है तभी उसका धर्मके प्रति विश्वास बढ़ता है और तभी उसका मन धर्ममें लगता है।

जबतक धर्ममें बुद्धि बूढ़ नहीं होती तबतक कोई उससे फलपर विश्वास नहीं करता। प्राणियोंकी बुद्धिमत्ताको यही पृथक्ता है कि वे धर्मके फलमें विश्वास करके उसके आचरणमें लग जायें। जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य दोनोंका ज्ञान है, उस पुरुषको एकाग्रचित्त होकर धर्मका आचरण करना चाहिये। जो अनुल ऐश्वर्यके स्वामी हैं, वे यह सोचकर कि कहीं रजोगुणों होकर हम पुनः जन्म-मृत्युके चक्करमें न पड़ जायें, धर्मका अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्नसे आत्माको महत् पदकी प्राप्ति कराते हैं। काल किसी तरह धर्मको अधर्म नहीं बना सकता अर्थात् धर्म करनेवालेको दुःख नहीं देता; इसलिये धर्मात्मा पुरुषको विगुड़ आत्मा ही समझना चाहिये। धर्मका स्वल्प प्रवृत्तित अग्निके समान तेजस्वी है। काल उसको सब ओरसे रक्षा करता है। अतः अधर्ममें इतनी शक्ति नहीं है कि वह धर्मको छू भी सके। विगुड़ और पापके स्पर्शका अभाव—ये दोनों धर्मके कार्य हैं। धर्म विग्रयकी प्राप्ति करनेवाला और तीनों लोकोंमें प्रकाश फैलानेवाला है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, यह किसीका हाथ पकड़कर उसे बलपूर्वक धर्ममें नहीं लगा सकता। अय में चारों धर्मोंके सम्बन्धमें कुछ कहता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन सब वर्णोंके शरीर पञ्चभूतोंसे ही बने हुए हैं और सफा आत्मा एक-सा है, फिर भी उनके लौकिक धर्म और विशेष धर्ममें विभिन्नता रखती गयी है। इसका उद्देश्य यही है कि सब लोग अपने-अपने धर्मका पालन करते हुए पुनः एकत्वको प्राप्त हों। यदि कहीं धर्म तो नित्य धामा गया है, फिर उससे स्वयं आदि अनित्य लोकोंकी प्राप्ति कैसे होती है? तो इसका उत्तर यह है कि जब धर्मका संकल्प नित्य होता है अर्थात् अनित्य कामनाओंका त्याग करके निष्काम भावसे धर्मका अनुष्ठान किया जाता है, उस समय किये हुए धर्मसे सनातन लोक (नित्य परमात्मा) की ही प्राप्ति होती है।

भीष्मजीका देवता, ऋषि, पर्वत और नदी आदिके नाम बतलाकर उनके स्मरणसे धर्मकी प्राप्ति बतलाना तथा भीष्मजीकी आज्ञासे युधिष्ठिरका परिवारसहित हस्तिनापुरमें जाना

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह! मनुष्यके कल्याणका उपाय क्या है? क्या करनेसे वह सुखी होता है? किस कर्मके अनुष्ठानसे उसका पाप दूर होता है? और कौन-सा कर्म पाप नष्ट करनेवाला है?

भीष्मजीने कहा—बेटा! यदि तीनों संख्याओंके समय वेध-बंध और ऋषि-बंशका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन-

रात, सबेरे-साम अपनी इन्द्रियोंके द्वारा जानकर या मनमानमें जो-जो पाप करता है, उन सबसे छुटकारा पा जाता है तथा वह सदा पवित्र रहता है। देववि-बंशका कीर्तन करनेवाला पुरुष कभी अंधा और बहरा न होकर सदा कल्याणका भागी होता है। वह तिर्यग्योनि और नारकमें नहीं पड़ता, संकर-योनिवर्तमें जन्म नहीं लेता, कभी बुढ़ासे मयभीत नहीं होगा

और मृत्युके समय व्याकुल नहीं होता। (देवता और ऋषि प्रादिके वंशकी नामावली इस प्रकार है—) सर्वभूतनमस्कृत देवासुरगुरु स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माजी, उनकी पत्नी सती सावित्री देवी, वेदोंके उत्पत्तिस्थान जगत्कर्ता भगवान् नारायण, तीन नेत्रोंवाले उमापति महादेव, देवसेनापति स्कन्द, विशाख, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, सूर्य, शचीपति इन्द्र, यमराज, उनकी पत्नी घृमोर्णा, अपनी पत्नी गौरीके साथ वरुण, ऋद्धिसहित कुबेर, सौम्य स्वभाववाली सुरभी गौ, महर्षि विश्वा, संकल्प, सागर, गङ्गा आदि नदियाँ, मरुद्गण, तपःसिद्ध वालाखिल्य ऋषि, श्रीकृष्णद्वैपायन, व्यास, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हह, तुम्बुरु, चित्रसेन, देवदूत, सौभाग्यशालिनी देवकन्याएँ, उर्वशी, मेनका, रम्भा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, विश्वाची, घृताची, पञ्चचूडा और तिलोत्तमा आदि दिव्य अप्सराएँ, वारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, अश्विनीकुमार, पितर, धर्म, शास्त्रज्ञान, तपस्या, दीक्षा, व्यवसाय, पितामह, रात, दिन, मरीचिनन्दन कश्यप, शुक, बृहस्पति, मङ्गल, दुध, राहु, शनैश्चर, नक्षत्र, ऋतु, मास, पक्ष, संवत्सर, विनताके पुत्र गरुड, समुद्र, कद्रूके पुत्र सर्पगण, शतद्रु, विपाशा, चन्द्रभागा, सरस्वती, सिन्धु, देविका, प्रमास, पुष्कर, गङ्गा, महानदी, वेणा, कावेरी, नर्मदा, कुलम्पुना, विशल्या, करतोया, अम्बुवाहिनी, सरयू, गण्डकी, महानद शोणभद्र, ताप्त्रा, अरुणा, वेदवती, पर्णाशा, गौतमी, गोदावरी, वेण्या, कृष्णवेणा, अद्रिजा, दृपद्वती, चक्षु, मन्दाकिनी, प्रयाग, नैमिषारण्य, विश्वेश्वरका स्थान, (काशी), विमल सरोवर, स्वच्छ सलिलसे युक्त पुण्यतीर्थ, कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान, जम्बूमार्ग, हिरण्वती, वितस्ता, प्लक्षवती, वेदस्मृति, वेदवती, मालवा, अश्ववती, पवित्र भूभाग, गङ्गाद्वार (हरिद्वार), ऋषिकुल्या, समुद्रगामिनी पवित्र नदियाँ, चर्मण्वती, कौशिकी, यमुना, भीमरथी, बाहुदा, माहेन्द्रवाणी, त्रिदिवा, नीलिका, नन्दा, अपरनन्दा, तीर्थसूत महान् हृद, गया, फल्गुतीर्थ, देवताओंसे युक्त धर्मारण्य, पवित्र देवनदी, तीनों लोकोंमें विख्यात, पवित्र एवं पापनाशक ब्रह्मनिर्मित सरोवर (पुष्करतीर्थ), दिव्य औषधियोंसे युक्त हिमवान पर्वत, नाना प्रकारके धातुओं, तीर्थों और औषधोंसे सुशोभित विन्ध्यगिरि, मेरु, महेन्द्र, मलय, चाँदीकी खानोंसे युक्त श्वेतगिरि, शृङ्गवान्, मन्दर, नील, नियध, ददुर, चित्रकूट, अजनाम, गन्धमादन, सोमगिरि तथा अन्यान्य पर्वत, दिशा, विदिशा, भूमि, वृक्ष, चित्रदेव, आकाश, नक्षत्र और ग्रहगण—ये सदा हमारी रक्षा करें तथा जिनके नाम लिये गये हैं और जिनके नहीं लिये गये हैं, वे सम्पूर्ण देवता हमलोगोंकी रक्षा करते हैं। जो मनुष्य उपर्युक्त देवता आदिका कीर्तन, स्तवन और अस्मि-

नन्दन करता है, वह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता है। देवताओंकी स्तुति और अस्मिन्दन करनेवाला पुरुष सब प्रकारके संकीर्ण पापोंसे छूट जाता है।

देवताओंके अनन्तर समस्त पापोंसे मुक्त करनेवाले तपःसिद्ध ब्रह्मर्षियोंके नाम बतलाता हूँ। यैवक्रीत, रंभ्य, रुक्षीवान्, औशिज, मृगु, अङ्गिरा, कण्व, मेधातिथि और सर्वगुण-सम्पन्न बर्हि—ये पूर्व दिशामें रहते हैं। उल्मुचु, प्रमुचु, मुमुचु, स्वस्त्यात्रेय, मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य और परम प्रसिद्ध ऋषिश्रेष्ठ दृढायु तथा ऊर्ध्वबाहु—ये दक्षिण दिशामें निवास करते हैं। अब पश्चिम दिशामें रहनेवाले ऋषियोंके नाम सुनो—अपने सहोदर भाइयोंसहित उषङ्गु, शक्तिशाली परिव्याध, दीर्घतमा, गौतम, काश्यप, एकत, द्वित, त्रित, महर्षि दुर्वासा और सारस्वत। इसी प्रकार अत्रि, वसिष्ठ, शक्ति, पराशरनन्दन व्यास, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि, परशुराम, उद्दालकपुत्र श्वेतकेतु, कोहल, विपुल, देवल, देवशर्मा, धौम्य, हस्तिकाश्यप, लोमश, नाचिकेत, लोमहर्षण, उग्रश्रवा और भृगुनन्दन च्यवन—ये उत्तर दिशामें निवास करते हैं। यह देवता और ऋषियोंका मुख्य सन्तुदाय अपने नामका कीर्तन करनेपर मनुष्यको सब पापोंसे मुक्त करता है।

अब राजर्षियोंके नाम सुनो—राजा नृग, ययाति, नहुष, यदु, शक्तिशाली पूरु, धुन्धुमार, दिलीप, प्रतापी सगर, कृशाश्व, यौवनाश्व, चित्राश्व, सत्यवान्, दुष्यन्त, महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत, पवन, जेनक, द्रुष्टरथ, नरश्रेष्ठ रघु, दशरथ, राक्षसहन्ता वीरवर राम, शशबिन्दु, भगीरथ, हरिश्चन्द्र, मरुत्त, दृढरथ, महोदर्य, अलर्क, ऐल (पुरूरवा), करन्धम, कश्मोर, दक्ष, अम्बरीष, कुकुर, महायशस्वी रैवत, क्रुच, संवरण, सत्यपराक्रमी भान्धाता, राजर्षि मुचुकुन्द, गङ्गाजीसे सेवित राजा जह्नु, आदिराजा वेननन्दन पृथु, सबका प्रिय करनेवाले मित्रजानु, व्रसद्स्यु, राजर्षिश्रेष्ठ श्वेत, प्रसिद्ध राजा महर्षिष, निमि, अष्टक, आयु, राजर्षि क्षुप, राजा कक्षेयु, प्रतर्दन, द्विचोदास, कोसलनरेश सुदास, राजर्षि नल, प्रजापति मनु, हविध्र, पृषध्र, प्रतीप, शान्तनु, अज, प्राचीन-वर्हि, महायशस्वी इक्ष्वाकु, राजा अनरण्य, जानुजङ्ग, राजर्षि कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणोंमें जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ है, वे सब पुण्यात्मा राजा स्मरण करने योग्य हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सबेरे उठकर स्नान आदिसे शुद्ध हो प्रातःकाल और सायंकालमें इन नामोंका पाठ करता है, वह धर्मके फलका भागी होता है।

जन्मेजयने पूछा—मुनिवर ! मेरे पूर्व पितामह राजा युधिष्ठिरने द्वाणशय्यापर पड़े हुए कौरव-धुरन्धर श्रीभञ्जीके

मूर्ते जब धर्मसम्बन्धी शास्त्रीय बातें और दानकी विधि सुन लें, सब शङ्खुओंका समाधान प्राप्त कर लिया और धर्म तथा अर्थके विषयमें उठनेवाले सम्पूर्ण संशयोंको मिटा डाला, उस समय फिर कौन-सा कार्य किया ? यह बतानेकी कृपा कौजिये ।

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! धर्मराज युधिष्ठिरको इस प्रकार उपदेश देकर जब पितामह भीष्म चुप हो गये, उस समय सारा राजमण्डल कुछ देरतक स्तब्ध होकर चित्रलिखित-सा हो गया । तदनन्तर, सत्यवतीनन्दन महर्षि ध्यासजीने षोडशे देर ध्यान करके गङ्गानन्दन भीष्मसे कहा—‘नरथेष्ठ ! अब राजा युधिष्ठिर शान्त हो चुके हैं—इनके शोक और संवेह निवृत्त हो गये हैं और ये अपने भाइयों, अनुगामी राजाओं तथा भगवान् श्रीकृष्णके साथ आपके समीप बैठे हुए हैं । अब आप इन्हें हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा दीजिये ।’

भगवान् ध्यासके इस प्रकार कहनेपर शान्तनूनन्दन भीष्म मन्त्रियोंसहित राजा युधिष्ठिरको जानेकी आज्ञा देते हुए मधुरवाणीमें बोले—‘राजन् ! अब तुम हस्तिनापुरको जाओ और अपने मनकी चिन्ता दूर कर दो । राजा ययातिकी भाँति श्रद्धा और दम गुणसे सम्पन्न होकर क्षत्रिय-धर्मका

पालन करते हुए देवताओंका पूजन और पितरोंका तपण करो । बहुत-सा अन्न खर्च करके पर्याप्त दक्षिणा देकर नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करते रहो । ऐसा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा, अब तुम्हें अपने मानसिक चिन्ता त्याग देनी चाहिये । तात ! प्रजाको प्रसन्न रखना, मन्त्री, सेनापति आदि प्रकृतियोंको सान्त्वना देते रहना और गुरुओंका यथोचित सम्मान करना । जैसे मन्दिरके आतपासके फले हुए वृक्षपर बहुत-से पत्ती आकर बसेरा लींते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और हित्यो तुम्हारे आश्रयमें रहकर जीवन-निर्वाह करें । बेटा ! जब सूर्यनारायण दक्षिणायनसे निवृत्त होकर उत्तरायणपर आ जायें, उस समय फिर हमारे पास आना ।’

यह सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने ‘बहुत अच्छा’ कहकर पितामहकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके परिवारसहित हस्तिनापुरको ओर चले । उनके आगे-आगे राजा धृतराष्ट्र और पतिव्रता गान्धारी देवो धी और सायमें ऋषियोग, सभी भाई, भगवान् श्रीकृष्ण, नगर और प्रान्तके लोग तथा युद्ध मन्त्री चल रहे थे । इन सबके साथ धर्मराजने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ।

भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके पास आना और भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देहत्यागकी अनुमति लेना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! हस्तिनापुरमें जानेके बाद कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने नगर और प्रान्तके लोगोंका यथोचित सम्मान किया तथा उन्हें अपने-अपने घर जानेकी आज्ञा दी । इसके बाद जिन स्त्रियोंके पति और पुत्र युद्धमें मारे गये थे, उन सबको बहुत-सा धन देकर धर्म बंधाया । तदनन्तर, युधिष्ठिरका राश्वसिंहासनके ऊपर अभिषेक किया गया और उन्होंने मन्त्री आदि सभसत् प्रकृतियोंको अपने-अपने पदपर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं गुणवान् ब्राह्मणोंसे उत्तम आशीर्वाद ग्रहण किया । तत्परचात् राजा युधिष्ठिरने पचास दिनोंतक हस्तिनापुरमें रहनेके बाद जब सूर्यदेवकी दक्षिणायनसे निवृत्त होकर उत्तरायणमें आये देखा तो उन्हें कुछभेद भीष्मजीकी मृत्युका स्मरण हो आया और वे यत् करानेवाले ब्राह्मणोंके साथ हस्तिनापुरसे चलनेको उद्यत हुए । जानेके पहले उन्होंने भीष्मजीका अन्त्येष्टि-संस्कार करनेके लिये घृत, माला, सुगन्धित द्रव्य, देशमी वस्त्र, चन्दन, काता अगुरु, अञ्जे-अञ्जे फूल तथा नाना प्रकारके रत्न आदि सामग्री मेज दी । फिर धृतराष्ट्र और गान्धारीको आगे करके माता कुन्ती,

सब भाई, भगवान् श्रीकृष्ण, युधिष्ठान् विदुर और सात्यकिके साथ लेकर वे नगरसे बाहर निकले । उनके साथ रथ, हाथी, घोड़े आदि राजोचित उपकरण और धर्मबका महान् ठाट-बाट था । बंदोजन उनकी स्तुति करते हुए चलते थे । महा-तेजस्वी युधिष्ठिर भीष्मजीके स्थापित किये हुए विविध अग्निशौकी आगे रखकर स्वयं पीछे-पीछे चल रहे थे । यथासमय वे कुहसेत्रमें शान्तनूनन्दन भीष्मजीके पास जा पहुँचे । उस समय वहाँ पराशरनन्दन ध्यास, देशरथ नारद और देवत ऋषि उनके पास बैठे थे तथा महामारत-युद्धमें मरनेसे बचे हुए और अन्यत्र्य देशोंसे आये हुए बहुत-से राजा उन महात्मकी सभ ओरसे रक्षा कर रहे थे । धर्मराज युधिष्ठिर दूरसे ही वीराम्यापर सोमे हुए भीष्मजीका दर्शन करके भाइयोंसहित रपसे उतर पड़े और निकट जाकर उन्होंने पितामह भीष्म तथा ध्यास आदि महर्षियोंको प्रणाम किया । इसके बाद उन महर्षिपंथी भी उतरा अभिनन्दन किया । फिर वे ऋषियोंने सिरें हुए पितामहके पास आकर बोले—‘दादाजी ! मैं युधिष्ठिर आपकी सेवामें उपस्थित

हैं और आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ। यदि आपको मेरी बात सुनायी देती हो तो आज्ञा दीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आपके वताये हुए समयपर अग्नियोंको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपके महातेजस्वी पुत्र राजा धृतराष्ट्र भी अपने मन्त्रियोंके साथ यहाँ पधारे हुए हैं। भगवान् श्रीकृष्ण, मरनेसे बचे हुए समस्त राजा और कुरुजाङ्गल देशके लोग भी आये हुए हैं। आप आँखें खोलकर इन सबकी ओर देखिये। आपके कथनानुसार इस समयके लिये जो कुछ करना आवश्यक था, वह सब कर लिया गया है। सभी उपयोगी वस्तुओंका प्रवन्ध हो चुका है।'

परम बुद्धिमान् युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर गङ्गानन्दन भीष्मजीने आँखें खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त भरतवंशी राजाओंकी ओर देखा। फिर युधिष्ठिरका हाथ पकड़कर मेघके समान गम्भीर वाणीमें यह समयोचित वचन कहा—'वेटा युधिष्ठिर! तुम अपने मन्त्रियोंके साथ



यहाँ आ गये, यह बड़ी अच्छी बात हुई। भगवान् सूर्य अब दक्षिणायनसे उत्तरायणकी ओर आ गये हैं। इन तीखे बाणोंकी शय्यापर शयन करते हुए आज मुझे अदृढावन दिन हो गये; किंतु ये दिन मेरे लिये सौ वर्षके समान बीते हैं। इस समय चान्द्रमासके अनुसार माघका महीना प्राप्त हुआ है। इसका यह शुक्लपक्ष चल रहा है, जिसका एक भाग बीत चुका है और तीन भाग बाकी है।'

धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर भीष्मजीने धृतराष्ट्रको सम्बोधित करके कहा—'राजन्! तुम धर्मको अच्छी तरह जानते हो। तुमने अर्थ-तत्त्वका भी भलीभाँति निर्णय कर लिया है। अब तुम्हारे मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है; क्योंकि तुमने अनेकों शास्त्रोंका ज्ञान रखनेवाले बहुत-से विद्वान् ब्राह्मणोंको सेवा की है। सम्पूर्ण वेदों, शास्त्रों और धर्मोंका तुम्हें पूरा-पूरा ज्ञान है; अतएव तुमको शोक नहीं करना चाहिये। जो कुछ हुआ है, वैसी ही होनाहार थी। तुमने कृष्णद्वैपायन व्यासजीसे देवताओंका रहस्य भी सुन लिया है (उसीके अनुसार महाभारत-युद्धकी सारी घटनाएँ हुई हैं)। ये पाण्डव जैसे राजा पाण्डुके पुत्र हैं वैसे ही धर्मकी दृष्टिसे तुम्हारे भी हैं। ये सदा गुरुजनोंकी सेवामें लगे रहते हैं। तुम धर्ममें स्थित रहकर अपने पुत्रोंके समान ही इनकी रक्षा करना। धर्मराज युधिष्ठिरका हृदय बहुत ही शुद्ध है। ये सदा तुम्हारी आज्ञाके अधीन रहेंगे। मैं जानता हूँ इनका स्वभाव बहुत ही कोमल है और ये गुरुजनोंके प्रति बड़ी भक्ति रखते हैं। तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या रखनेवाले और दुराचारी थे, अतः उनके लिये कभी शोक न करना।'

धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर भीष्मजी भगवान् श्रीकृष्णसे बोले—'भगवन्! आप देवताओंके भी देवता हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणोंमें शीश झुकाते हैं। अपने तीन पगोंसे त्रिलोकीको नापनेवाले भगवान् वामन! आपको प्रणाम है। आप शङ्ख, चक्र तथा गदा धारण करनेवाले हैं, वामुदेव, हिरण्यगता, पुरुष, सविता, विराट्, अनुरूप जीव और सनातन परमात्मा भी आप ही हैं। कमलके समान नेत्रोंवाले पुरुषोत्तम! आप मेरा उद्धार करें। श्रीकृष्ण! अब आप मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये और सदा आपकी शरणमें रहनेवाले इन पाण्डु-पुत्रोंकी रक्षा करते रहिये। मैंने दुर्वृद्धि दुर्योधनको यह कहकर समझाया था कि 'जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है उसी पक्षकी जीत होनी निश्चित है, इसलिये वेटा दुर्योधन! भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे तुम पाण्डवोंके साथ संधि कर लो, यह संधिके लिये बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है।' इस प्रकार बार-बार कहनेपर भी उस मूर्खने मेरी बात नहीं मानी और सारी पृथ्वीके वीरोंका नाश कराकर अन्तमें वह स्वयं भी कालके गालमें चला गया। भगवन्! मैं आपको जानता हूँ। आप वे ही पुरातन ऋषि नारायण हैं, जो नरके साथ चिरकालतक बदरिकाश्रममें निवास करते रहे हैं। देवर्षि नारद और महातपस्वी व्यासजीने भी मुझसे कहा था कि 'ये श्रीकृष्ण और अर्जुन साक्षात् भगवान् नारायण और नर हैं, जो मानव-शरीरमें

अवतीर्ण हुए हैं।' श्रीकृष्ण ! अब आप आज्ञा बीजिये, मैं इस शरीरका परित्याग करूँगा। आपकी आज्ञा मिलनेपर मुझे परमपतिकी प्राप्ति होगी।'

श्रीकृष्णने कहा—भोष्मजी ! मैं आपको सहर्ष आज्ञा देता हूँ। आप वसुलोकको जाइये, इस लोकमें आपके द्वारा अणुमात्र भी पाप नहीं हुआ है। राजपें ! आप दूसरे मार्कण्डेयके समान पितृमन्त्र हैं; इसलिये मृत्यु विनीत वासी-की भाँति आपके वरामें है।

भगवान्के ऐसा कहनेपर गङ्गानन्दन भोष्मने पाण्डवों तथा धृतराष्ट्र आदि सभी सुहृदोंसे कहा—'अब मैं प्राणोंका


त्याग करना चाहता हूँ, तुम सब लोग मुझे इसके लिये आज्ञा दो। तुम्हें सदा सत्यधर्मके पालनका प्रयत्न करते रहना चाहिये; क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम लोगोंको सबके साथ कोमलताका व्यवहार करना, सदा अपनी इन्द्रियोंके वरामें रहना, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति करना तथा धर्मनिष्ठ एवं तपस्वी होना चाहिये।'

यह कहकर भोष्मजीने अपने सब सुहृदोंको गतसे लगाया और मुष्टिच्छिन्ने पुनः इस प्रकार कहा—'राजन् ! तुम सामान्यतः सभी ब्राह्मणोंकी, विद्योद्यतः विद्वानोंकी और आचार्य तथा श्रुतिवज्रोंको सदा ही पूजा करते रहना।'

भोष्मजीका प्राण-त्याग और धृतराष्ट्र आदिके द्वारा उनका दाह-संस्कार। कौरवोंका गङ्गाके जलसे भोष्मको जलाञ्जलि देना, गङ्गाजीका प्रकट होकर पुत्रके लिये शोक करना और श्रीकृष्णका उन्हें समझाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! समस्त कौरवोंसे इस प्रकार कहकर शान्तनूनन्दन भोष्मजी कुछ देरतक चुपचाप पड़े रहे। तदनन्तर, वे मनसहित प्राणवायुको क्रमशः भिन्न-भिन्न धारणाओंमें स्थापित करने लगे। इस तरह यौगिक क्रियाके द्वारा रोकें हुए महात्मा भोष्मजीके प्राण क्रमशः ऊपर चढ़ने लगे। उस समय वहाँ एकाग्रित हुए सभी संत-महात्माओंके बीच एक बड़े आश्चर्यकी घटना घटी। व्यास आदि सब महाविद्योंने देखा कि शान्तनूनन्दन भोष्मका प्राण उनके जिस-जिस अङ्गको त्यागकर ऊपर उठता था, उस-उस अङ्गके बाण अपने-आप निकल जाते और उनका घाव भर जाता था। इस प्रकार सबके देखते-देखते भोष्मजीका शरीर क्षणभरमें बाणसे रहित हो गया। यह देखकर भगवान् श्रीकृष्ण और व्यास आदि महाविद्योंको बड़ा विस्मय हुआ। भोष्मजीने अपने देहके सभी द्वारोंको बंद करके प्राणको सब ओरसे रोक लिया था, इसलिये वह उनका मस्तक (ब्रह्मरन्ध्र) फोड़कर आकाशमें चला गया। उस समय देवताओंने हुन्नुमी बजायी और फूलोंकी वर्षा की। सिद्धों तथा ब्रह्म-पियोंकी बड़ा हर्ष हुआ। वे भोष्मजीको साधुवाद देने लगे। भोष्मजीका प्राण उनके ब्रह्मरन्ध्रसे निकलकर उल्काकी भाँति आकाशकी ओर उड़ा और क्षणभरमें विलीन हो गया। इस प्रकार भरतवंशका भार सहन करनेवाले शान्तनूनन्दन भोष्मजी कालके अधीन हुए।

तत्परन्तु मुष्टिच्छिन् और विदुरजीने भोष्मजीको चितापर सुलाकर उन्हें देशमी वस्त्रों और फूलोंकी मालाओंसे ढक दिया। उस समय मृत्युने उनके ऊपर छत्र लगाया, भीमसेन तथा अर्जुन खेत खेवर और ध्वजन इताने लगे। माद्री-कुमार नकुल और सहदेवने पगड़ी हाथमें लेकर भोष्मजीके मस्तकपर रखी। कुण्डलकी स्त्रियाँ ताड़के पत्ते लेकर चारों



तदनन्तर, बहुत-से काष्ठ और नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्य लेकर महात्मा पाण्डव, विदुर और मुप्लुत्वि चिता तैयार की और बाकी लोग अलग छड़े होकर देखते रहे।

ओरसे उन्हें हवा करने लगीं। फिर पाण्डवोंने विधिपूर्वक समयोचित पितृमेघ किया और भीष्मके शवका संस्कार करते हुए अग्निमें बहुत-सी आहुतियाँ डालीं। उस समय सामवेदके विद्वान् ब्राह्मण सामगान करने लगे और धृतराष्ट्रने चन्दनकी लकड़ी तथा सुगन्धित वस्तुओंसे भीष्मके शरीरको आच्छादित करके उनकी चितामें आग लगा दी। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवोंने उस जलती हुई चिताकी प्रदक्षिणा की। इस प्रकार भीष्मजीका दाह-संस्कार करके समस्त कौरव अपने कुलकी स्त्रियोंको साथ लेकर ऋषि-मुनियोंसे सेवित परम पवित्र भागीरथीके तटपर गये। उनके साथ महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, असित देवल, भगवान् श्रीकृष्ण तथा नगर-निवासी मनुष्य भी थे। वहाँ पहुँचकर सब लोगोंने विधिपूर्वक महात्मा भीष्मको जलाञ्जलि दी।

उस समय अपने पुत्र भीष्मको जलाञ्जलि देनेका कार्य पूरा हो जानेपर भगवती भागीरथी जलके ऊपर प्रकट हुई और शोकसे विकल हो कौरवोंसे रो-रोकर कहने लगीं—



'प्रिय पुत्रो! मेरी बात सुनो—भीष्म राजोचित सदाचारसे सम्पन्न थे, उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उनका जन्म भी बहुत

उत्तम कुलमें हुआ था। वे कुरुकुलके बृद्ध पुरुषोंका सत्कार करनेवाले और अपने पिताके बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवनमें महान् व्रतका पालन किया था। जमदग्निकुमा परशुरामजी भी अपने दिव्य अस्त्रोंके द्वारा उन्हें परास्त नहीं कर सके थे; किंतु वे ही महापराक्रमी भीष्म शिखण्डीके हाथसे मारे गये, यह कितने दुःखकी बात है! अवश्य ही मेरा हृदय पत्थरका बना हुआ है, तभी तो अपने प्यारे पुत्रको जीवित न देखकर भी यह फट नहीं जाता। काशीपुरीके स्वयंवरमें समस्त क्षत्रिय राजा एकत्र हुए थे; किंतु भीष्मने अकेले ही उन सबको जीतकर काशिराजकी कन्याओंका अपहरण किया था। हाय! बलमें जिनकी समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा कोई वीर नहीं है, उन्हींको शिखण्डीके हाथसे मारे गये सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती? ओह! जिन्होंने कुरुक्षेत्रके मैदानमें युद्ध करके परशुरामको भी अनायास ही कण्ठमें डाल दिया था, उन्हींको मृत्यु शिखण्डीके हाथ से हुई!'।

ऐसी बातें कहकर जब गङ्गाजी बहुत विलाप करने लगीं तो भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें समझाते हुए कहा—'कल्याणी! धैर्य धारण करो, शोक त्याग दो। तुम्हारे पुत्र भीष्मजी अत्यन्त उत्तम लोकमें गये हैं, इसमें तनिक भी संदेह न करो। वे महातेजस्वी वसु थे। वसिष्ठ मुनिके शापसे उन्हें मनुष्य-योनिमें जन्म लेना पड़ा था। उनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। उन्होंने समराङ्गणमें क्षत्रिय-धर्मके अनुसार युद्ध किया था। वे अर्जुनके द्वारा मारे गये हैं; शिखण्डीके हाथसे उनकी मृत्यु नहीं हुई है। देवि! तुम्हारे पुत्र कुरुक्षेत्र भीष्म जब हाथमें धनुष-बाण लिये रहते, उस समय साक्षात् इन्द्र भी उन्हें मारनेमें समर्थ नहीं हो सकते थे। वे तो अपनी इच्छासे ही शरीर त्यागकर दिव्य लोकमें गये हैं। सम्पूर्ण देवता मिलकर भी युद्धमें उन्हें मारनेकी शक्ति नहीं रखते थे, इसलिये तुम कुरुन्धन भीष्मजीके लिये शोक न करो। वे वसुओंके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं, उनकी चिन्ता छोड़ दो।'

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! भगवान् श्रीकृष्ण और व्यासने जब इस प्रकार समझाया तो नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी शोक छोड़कर पानीमें उतर गयीं और श्रीकृष्ण आदि सब लोग गङ्गाजीका सत्कार करके उनकी आज्ञा ले वहाँसे लौट आये।

संक्षिप्त महाभारत

आश्वमेधिकपर्व

युधिष्ठिरका शोक करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना और व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाते हुए राजा मरुत्की कथा सुनाना

नारायणं तमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्पामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी सीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके घबरा महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आयुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

वंशम्पायनजी कहते हैं—जन्मेजय ! भीष्मको जलाञ्जलि दे लेनेके परचात् महाराज घृतराष्ट्रको धामे करके महाबाहु युधिष्ठिर धानीसे बाहर निकले । उस समय उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियां शोकसे व्याकुल हो रही थीं । बाहर आनेपर



वे दोनों नेवैसी आँसुकी धारा बहाते हुए गङ्गाजीके तटपर गिर पड़े । राजाको इतना दौन और हलौत्साह देखकर पाण्डव फिर शोकमें डूब गये और उर्हके पास बैठ रहे । तब भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'राजन् ! यदि मनुष्य मरे हुए प्राणीके लिये अपने मनमें अधिक शोक करता है तो उसके परतीकवासी पिता-पितामह आदि बहुत संतप्त होते हैं । इसलिये आप बड़ी-बड़ी वसिष्ठावाले नाना प्रकारके धर्मोका अनुष्ठान करके सोम-रससे देवताओंको और स्वधा (घाट) के द्वारा पितरोंको वृत्त कीजिये । अतिपियोंको अन्न और जल देकर तथा अधिकचन मनुष्योंको उनकी इच्छाएँ पूर्ण करके संतुष्ट कीजिये । आपने तो आजनेयोग्य तत्त्वका ज्ञान प्राप्त किया है, करनेयोग्य कार्योंको पूर्ण कर लिया है तथा भीष्म, व्यास, नारद और विदुरजीके मुंहसे राजाके धर्मोका ध्ययन किया है । अतः आपको मृदु पुरयोंके समान शोक नहीं करना चाहिये । उठिये और अपने पिता-पितामहोंके बर्तयका अनुसरण करते हुए राज्यका भार संभालिये । महाराज ! जैसी हीमहार थी वंसा ही सब कुछ हुआ है, अतः शोक त्याग दीजिये । इस मुद्दमें जो लोग मारे गये हैं, उन्हें शय आप फिर नहीं देख सकते ।'

यह कहकर भगवान् श्रीकृष्ण चुप हो गये । तब महा-तेजस्वी युधिष्ठिरने कहा—'योक्विन्व । आपका मेरे ऊपर जो प्रेम है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ । आप स्नेह और सीहार्दपरा सदा ही मुझपर कृपा करते रहते हैं । गदाधर ! यदि प्रसन्नतापूर्वक आप मुझे तपोवनमें जानेकी आज्ञा दे देते तो मेरा सबसे बड़ा श्रिय कार्य हो जाता । मैं पितामह भीष्मकी और मुद्दसे कभी पीठ न दिलावेवाले नरघेष्ट कर्मको मर्यादकर कर्मोंशान्ति नहीं पा सकता । अब जित उपायों मुझे अपने कृतापूर्ण पापसे छुटकारा मिले, जित कामदे करुनेसे मेरा चित्त शुद्ध हो, वही कीजिये ।'

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको ऐसी बातें करते देख धर्मके तत्त्वकी जाननेवाले महातेजस्वी व्यासजीने कहा—'तत !

औरसे उन्हें हवा करने लगीं। फिर पाण्डवोंने विधिपूर्वक समयोचित पितृमेघ किया और भीष्मके शवका संस्कार करते हुए अग्निमें बहुत-सी आहुतियाँ डालीं। उस समय सामवेदके विद्वान् ब्राह्मण सामगान करने लगे और धृतराष्ट्रने चन्दनकी लकड़ी तथा सुगन्धित वस्तुओंसे भीष्मके शरीरको आच्छादित करके उनकी चितामें आग लगा दी। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवोंने उस जलती हुई चिताकी प्रदक्षिणा की। इस प्रकार भीष्मजीका दाह-संस्कार करके समस्त कौरव अपने कुलकी स्त्रियोंको साथ लेकर ऋषि-मुनियोंसे सेवित परम पवित्र भागीरथीके तटपर गये। उनके साथ महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, असित देवल, भगवान् श्रीकृष्ण तथा नगर-निवासी मनुष्य भी थे। वहाँ पहुँचकर सब लोगोंने विधिपूर्वक महात्मा भीष्मको जलाञ्जलि दी।

उस समय अपने पुत्र भीष्मको जलाञ्जलि देनेका कार्य पूरा हो जानेपर भगवती भागीरथी जलके ऊपर प्रकट हुईं और शोकसे विकल हो कौरवोंसे रो-रोकर कहने लगीं—



‘प्रिय पुत्रो! मेरी बात सुनो—भीष्म राजोचित सदाचारसे सम्पन्न थे, उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उनका जन्म भी बहुत

उत्तम कुलमें हुआ था। वे कुरुकुलके वृद्ध पुरुषोंका सत्कार करनेवाले और अपने पिताके बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवनमें महान् व्रतका पालन किया था। जमदग्निकुमार परशुरामजी भी अपने दिव्य अस्त्रोंके द्वारा उन्हें परास्त नहीं कर सके थे; किंतु वे ही महापराक्रमी भीष्म शिखण्डीके हाथसे मारे गये, यह कितने दुःखकी बात है! अवश्य ही मेरा हृदय पत्यरका बना हुआ है, तभी तो अपने प्यारे पुत्रको जीवित न देखकर भी यह फट नहीं जाता। काशीपुरीके स्वयंवरमें समस्त क्षत्रिय राजा एकत्र हुए थे; किंतु भीष्मने अकेले ही उन सबको जीतकर काशिराजकी कन्याओंका अपहरण किया था। हाय! चलमें जिनकी समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा कोई वीर नहीं है, उन्हींको शिखण्डीके हाथसे मारे गये सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती? ओह! जिन्होंने कुरुक्षेत्रके भंवानमें युद्ध करके परशुरामको भी अनायास ही कट्टमें डाल दिया था, उन्हींकी मृत्यु शिखण्डीके हाथ से हुई!’

ऐसी बातें कहकर जब गङ्गाजी बहुत विलाप करने लगीं तो भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें समझाते हुए कहा—‘कल्याणी! धैर्य धारण करो, शोक त्याग दो। तुम्हारे पुत्र भीष्मजी अत्यन्त उत्तम लोकमें गये हैं, इसमें तनिक भी संदेह न करो। वे महातेजस्वी वसु थे। वसिष्ठ मुनिके शापसे उन्हें मनुष्य-योनिमें जन्म लेना पड़ा था। उनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। उन्होंने समराङ्गणमें क्षत्रिय-धर्मके अनुसार युद्ध किया था। वे अर्जुनके द्वारा मारे गये हैं; शिखण्डीके हाथसे उनकी मृत्यु नहीं हुई है। देवि! तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म जब हाथमें धनुष-बाण लिये रहते, उस समय साक्षात् इन्द्र भी उन्हें मारनेमें समर्थ नहीं हो सकते थे। वे तो अपनी इच्छासे ही शरीर त्यागकर दिव्य लोकमें गये हैं। सम्पूर्ण देवता मिलकर भी युद्धमें उन्हें मारनेकी शक्ति नहीं रखते थे, इसलिये तुम कुरुनन्दन भीष्मजीके लिये शोक न करो। वे वसुओंके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं, उनकी चिन्ता छोड़ दो।’

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! भगवान् श्रीकृष्ण और व्यासने जब इस प्रकार समझाया तो नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी शोक छोड़कर पानीमें उतर गयीं और श्रीकृष्ण आदि सब लोग गङ्गाजीका सत्कार करके उनकी आज्ञा ले वहाँसे लौट आये।

संक्षिप्त महाभारत

आश्वमेधिकपर्व

युधिष्ठिरका शोक करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना और व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाते हुए राजा भरतकी कथा सुनाना

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्धानी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्यसत्ता नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी सीता प्रवट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके यथा महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।


वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भीष्मको जलाशयजलि दे लेनेके परवात् महाराज धृतराष्ट्रको आगे करके महाबाहु युधिष्ठिर पानीसे बाहर निकले । उस समय उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियां शोकसे व्याकुल हो रही थीं । बाहर आनेपर



वे दोनों नेत्रोंसे आंसूको धारा बहाते हुए गङ्गाजोके तटपर गिर पड़े । राजाको इतना दीन और हतोत्साह देरकर पाण्डव फिर शोकमें डूब गये और जन्हीके पास बंध रहे । तब भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘राजन् ! यदि मनुष्य मरे हुए प्राणीके लिये अपने मनमें अधिक शोक करता है तो उसके परलोकवासी पिता-पितामह आदि बहुत संतप्त होते हैं । इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना प्रकारके धर्मोंका अनुष्ठान करके सोम-रससे देवताओंको और स्वधा (याद) के द्वारा पितरोंको तृप्त कीजिये । अतिपियोंको अन्न और जल देकर तथा अकिंचन मनुष्योंको उनकी इच्छाएँ पूर्ण करके संतुष्ट कीजिये । आपने तो जाननेयोग्य तत्त्वका ज्ञान प्राप्त किया है, करनेयोग्य कार्योंको पूर्ण कर लिया है तथा भीष्म, व्यास, नारद और विदुरजोके मुंहसे राजाके धर्मोंका श्रवण किया है । अतः आपको मृदु पुरुषोंके समान शोक नहीं करना चाहिये । उठिये और अपने पिता-पितामहोंके बर्तावका अनुसरण करते हुए राज्यका भार संभालिये । महाराज ! जैसी होनहार धी वंसा ही सब कुछ हुआ है, अतः शोक त्याग दीजिये । इस युद्धमें जो लोग मारे गये हैं, उन्हें क्या आप फिर नहीं देख सकते ।’

मह कहकर भगवान् श्रीकृष्ण चुप हो गये । तब महा-तेजस्वी युधिष्ठिरने कहा—‘गोविन्द ! आपका मेरे ऊपर जो प्रेम है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ । आप स्नेह और सौहार्दयना सदा ही मुझपर कृपा करते रहते हैं । गदाधर ! यदि प्रसन्नतापूर्वक आप मुझे तपोवनमें जानेको आज्ञा दे देते तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय कार्य हो जाता । मैं पितामह भीष्मको और युद्धसे कभी पीठ न दिवानेवाले नरधेष्ट कर्णको मर्यादकर कभी शान्ति नहीं पा सकता । अब जिस उपायको मुझे अपने क्रूरतापूर्ण पापसे छुटकारा मिले, जिस नामके करनेसे मेरा चित्त शुद्ध हो, वही कीजिये ।’

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको ऐसी बातें करते देख धर्मके तत्त्वको जाननेवाले महातेजस्वी व्यासजीने कहा—‘तात !



तुम्हारी बुद्धि अभी गूढ़ नहीं हुई। तुम पुनः बालकोंकी भाँति मोहमें पड़ गये। हमलोगोंका बार-बार समझाना व्यर्थका प्रयत्न सिद्ध हो रहा है, अब हम किस साधक रह गये? युद्धसे ही जिनकी लौबिक चलती है, उन सभ्रियोंके धर्म तुम्हें मजबूतभाँति विदित हैं। वंश कर्तव्य करनेसे राजाको नालसिक चिन्तसे प्रसन्न नहीं होता पड़ता, वह भी तुमसे छिपा नहीं है। तुमने सम्पूर्ण मोक्ष-धर्मोंका यथासंभव अभ्यास किया है। मैंने भी इनके वार तुम्हारे सिद्धोंका निवारण किया है। इनके सिवा, तुम सम्पूर्ण राज-धर्म और दान-धर्मको भी सुन चुके हो। इस प्रकार सब धर्मोंके ज्ञाता और सम्पूर्ण शास्त्रिके विद्वान् होकर भी अज्ञानवश बार-बार मोहमें क्यों पड़ रहे हो? युधिष्ठिर! मुझे तो ऐसा ज्ञान पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है (तभी तुम झारा दोष अपने ही ऊपर मड़ते हो)। अच्छा, यदि अज्ञानोपलब्ध तुम अपनेकी ही युद्ध-धर्म पाठ-कर्मकी बड़ मानते हो तो वह स्याद भी सुनी, जिससे उस पाठका नाश हो सकता है। जो मनुष्य पाठ करते हैं, वे तपस्या, धन और दानके द्वारा ही अपना उद्धार करते हैं। इन्हीं कर्मोंसे पापियोंकी मुक्ति होती है। जन्तों ही देवताओंका माहात्म्य अधिक हुआ है और क्रियात्मिक देवताओंके धर्मके ही बतसे दानकोंको परसक्त किया है। वरपरमन्त्र भरवान् रानने तथा बुध्यन्त और गुरु-जालके पुत्र तुम्हारे पूर्वजानह राजा भरतने किस प्रकार अश्वमेध-

यज्ञका अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकारकी दक्षिणा देकर तथा बहुत-से मनोवाञ्छित पदार्थ, अन्न और धन आदि खर्च करके अश्वमेध-यज्ञ करो।

युधिष्ठिरने कहा—विप्रवर! इसमें संदेह नहीं कि अश्वमेध-यज्ञ राजाको पवित्र कर सकता है, किन्तु इसके सन्बन्धमें मैं अपना एक हादिक अमिप्राय आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, उसे सुनिये। अपने जाति-माइयोंका यह महान् संहार करानेके बाद अब मेरे पास दक्षिणामें देनेके लिये धन नहीं रह गया है, अतः इस समय मैं योद्धा-त्ता भी दान करनेमें असमर्थ हूँ। यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं, वे सभी संकटमें पड़े हुए हैं। इनके शरीरका घाव भी अभी सूझने नहीं पाया है। इस युद्धके कारण ये भी दीन एवं दुखी हो गये हैं। अतः इनसे भी मैं धनकी याचना नहीं कर सकता। सारी पृथ्वीका नाश कराकर यों ही मैं शोकमें डूबा हुआ हूँ। अब इन बेचारोंसे किस तरह कर वसूल करूँ? दुर्योधनके अश्वमेधने यह पृथ्वी और इसपर रहनेवाले अधिकांश राजा नष्ट हो गये तथा हमलोगोंके भाये अपयशका टीका लगा। दुर्योधनने धनके लोभसे समस्त मूनण्डनका संहार कराया; किन्तु धन मिलना तो दूर रहा, उसका अपना सजाना भी शाली हो गया। अश्वमेध-यज्ञमें समूची पृथ्वीकी दक्षिणा देने चाहिये, यही विद्वानोंने मुख्य कल्प माना है। इसके सिवा जो कुछ किया जाता है, वह विधिके विपरीत है। मुख्य वस्तुके अभावमें जो दूसरी कोई वस्तु दी जाती है, वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है, किन्तु प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती; अतः इस विषयमें आप मुझे उचित सलाह देनेकी कृपा करें।

युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर श्रीकृष्णदेवपापन व्यासने योद्धा वैरतक सोचकर कहा—धर्मराज! यद्यपि तुम्हारा खजाना इस समय खाली हो गया है तथापि वह बहुत शीघ्र भर जायगा। प्राचीन समयमें महात्मा राजा भरतने बड़ा भारी यज्ञ करके अपने ब्राह्मणोंकी बहुत-सा सुवर्ण दान किया था। वह इतना अधिक था कि ब्राह्मणोंमें उसे ला न सके, वही छोड़कर चले गये। वह झारा धन आज भी हिमालय पर्वतपर पड़ा हुआ है। तुम उसे लेगवा लो, वह तुम्हारे धनके लिये पर्याप्त होगा।

युधिष्ठिरने पूछा—नहयें! महाराज भरत किस समय इस पृथ्वीके राजा हुए थे? तथा उनके यज्ञमें इतने धनका संग्रह किस प्रकार किया गया था?

व्यासजीने कहा—देवा! सत्ययुगमें राजदण्ड धारण करनेवाले वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पुत्र महाबाहु प्रसिद्धके नामसे विख्यात थे। प्रसिद्धके पुत्र

मोह छोड़ घरसे निकल गये और दिगम्बर होकर वनमें रहने लगे। घरकी अपेक्षा वनवासमें ही उन्होंने सुख माना। इसी समय इन्द्रने समस्त असुरोंको जीतकर त्रिभुवनका साम्राज्य प्राप्त किया और अङ्गिराके ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पतिको अपना पुरोहित बना लिया। इसके पहले अङ्गिराके यजमान राजा करन्धम थे। उनके समान दलवान्, सदाचारी और पराक्रमी कोई नहीं था। वे बड़े धर्मात्मा थे और तेजमें इन्द्रको भी मात करते थे। उन्होंने अपने गुणोंके प्रभावसे सम्पूर्ण राजाओंको वशमें कर लिया था। कहते हैं, वे इस मानव-शरीरके साथ ही स्वर्गलोकको चले गये थे। तत्पश्चात् उनके पुत्र अविधित् इस पृथ्वीके राजा हुए, जो ययातिके समान धर्मज्ञ थे। वे पराक्रम और गुणोंमें अपने पिताके ही समान थे। उन्हींके पुत्र राजा मरुत थे, जिनका पराक्रम इन्द्रके समान था। समस्त भूमण्डलकी प्रजा उनमें अनुराग रखती थी। महाराज मरुत और देवराज इन्द्र—ये दोनों एक-दूसरेसे हमेशा लाग-डाँट रखते थे। मरुत बड़े पवित्र और गुणवान् थे। इन्द्र प्रत्येक बातमें उनसे बढ़नेका प्रयत्न करते थे; किंतु कभी भी उन्हें सफलता न मिली। जब किसी तरह वे बढ़ न सके तो बृहस्पतिको बुलाकर देवताओंके सामने उनसे इत प्रकार कहने लगे—'बृहस्पतिजी! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो राजा मरुतका यज्ञ अथवा श्राद्ध न कराइयेगा। एकमात्र मैं ही तीनों लोकोंका स्वामी और देवताओंका इन्द्र हूँ। मरुत तो केवल पृथ्वीके राजा हैं। आपका कल्याण हो। आप मरुतको त्यागकर मुझे अपना यजमान बनाइये या मुझे छोड़कर राजा मरुतको।'

इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर बृहस्पतिने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया—'देवराज! तुम सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी हो। तुम्हारे ही आधारपर समस्त लोक टिके हुए हैं। तुमने नमुचि, विश्वरूप और बल नामक वैत्यका संहार किया है। तुम देवताओंमें अद्वितीय वीर हो और तुमने सर्वोत्तम सम्पत्तिपर अधिकार प्राप्त किया है। पृथ्वी और स्वर्गका तुम्हीं सदा पालन करते हो। तुम्हारा पुरोहित होकर मैं मरणधर्मा मरुतका यज्ञ कैसे करा सकता हूँ। तुम धैर्य रखो। मैं अब किसी भी मनुष्यके यज्ञमें कभी भी लुवा नहीं ग्रहण करूँगा। आग चाहे ठंडी हो जाय, पृथ्वी उलट जाय और सूर्यदेव प्रकाश करना छोड़ दें; किंतु मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा नहीं टल सकती।'

बृहस्पतिकी बात सुनकर इन्द्रने उनकी प्रशंसा की और अपने भवनमें चले गये। राजा मरुतने जब यह सुना कि अङ्गिराके पुत्र बृहस्पतिजीने मनुष्यके यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा कर ली है तो उन्होंने एक महान् यज्ञका आयोजन किया। मन-ही-मन उस यज्ञका संकल्प करके वे बृहस्पतिजीके पास

गये और विनोत भावसे बोले—'भगवन्! मैंने पहले एक बार आकर जो आपसे यज्ञके विषयमें सलाह ली थी और आपने जिसके लिये मुझे आज्ञा दी थी, उस यज्ञको अब मैं प्रारम्भ करना चाहता हूँ। आपके कथनानुसार मैंने सब सामग्री एकत्रित कर ली है। इसके सिवा, मैं आपका पुराना यजमान भी हूँ, इसलिये चलकर मेरा यज्ञ करा दीजिये।'

बृहस्पतिजीने कहा—'राजन्! अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराना नहीं चाहता। देवराज इन्द्रने मुझे अपना पुरोहित बना लिया है और मैंने भी उनके सामने प्रतिज्ञा कर ली है कि मनुष्योंके यज्ञ नहीं कराऊँगा।'

मरुतने कहा—'विप्रवर! मैं आपके पिताके समयसे ही आपका यजमान हूँ तथा आपका विशेष सम्मान करता हूँ, आपके चरणोंमें मेरी बड़ी भक्ति है; अतः आप मुझे स्वीकार कीजिये।'

बृहस्पतिजीने कहा—'मरुत! जो कभी मृत्युके वशमें नहीं होते, उन देवताओंका यज्ञ करानेके बाद अब मैं मरणधर्मा मनुष्योंका यज्ञ कैसे कराऊँगा? तुम दूसरे किसीको अपना पुरोहित बना लो, जो तुम्हारा यज्ञ करा दिया करेगा। आजसे मैं तुम्हारे यज्ञमें हाथ नहीं डालूँगा।'

बृहस्पतिजीसे ऐसा उत्तर पाकर महाराज मरुतको बड़ा संकोच हुआ। वे बहुत खिन्न होकर लीटे जा रहे थे, उसी समय रास्तेमें उन्हें नारदजी दिखायी पड़े। उनके



पास जाकर राजा मरुत न्यायानुसार हाथ जोड़कर खड़े हो गये। तब नारदजीने उनसे कहा—'राज्य! तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिलायी देते। कही, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है न? इधर कहाँ गये थे? और किस कारण तुम्हें यह खेदका अवसर प्राप्त हुआ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ, मैं तुम्हारा दुःख दूर करानेके लिये पूर्ण यत्न करूँगा।'

देवर्षि नारदके इस प्रकार पूछनेपर राजा मरुतने उपाध्याय (पुरोहित) से बिछोह होनेका सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। वे बोले—'नारदजी! मैं अङ्गिराके पुत्र देवगुरु बृहस्पतिजीके पास गया था। मेरा विचार था कि उन्हें अपने यहाँ यज्ञ करानेके लिये श्रुतिवज बनाऊँ; किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की। उन्होंने स्पष्टरूपसे इन्कार कर बी है। वे मेरे गुरु थे; किंतु आज उन्होंने मुझमें मरणधर्मा मनुष्य होनेका दोष बताकर मेरा सर्वथा परित्याग कर दिया है, इसलिये अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता।'

राजा मरुतके ऐसा कहनेपर देवर्षि नारदने अपनी अमृतमयी धाणोके द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करते हुएसे कहा—'राजन्! अङ्गिराके द्वितीय पुत्र संवर्त बड़े धार्मिक हैं। वे दिगम्बर होकर सम्पूर्ण विश्वमें भ्रमण कर रहे हैं। यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यज्ञमान बनाना नहीं चाहते तो तुम उन्हींके पास चले जाओ। संवर्त बड़े तेजस्वी हैं। वे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे।'

मरुतने पूछा—'देवर्षि! आपने यह बात बताकर मुझे जिला दिया। अब यह भी बतानेकी कृपा कीजिये कि मैं संवर्त मूर्तिका दर्शन कहाँ कर सकूँगा? और मुझे उनके साथ कंसा बताव करना होगा?'

नारदजीने कहा—'महाराज! वे इस समय काशीपुरीमें विश्वनाथजीके दर्शनकी इच्छासे फासलका-सा वेप धारण किये अपनी भोजसे घूम रहे हैं। तुम विश्वनाथपुरीके प्रवेश-द्वारपर पहुँचकर वहाँ कहींसे एक मुर्दा लाकर रख देना। प्रातःकाल विश्वेश्वरके दर्शनके लिये जाते समय जो उस मुर्देको देखकर पीछे सौट पड़े उसे संवर्त समझना और वे जहाँ जायें वहाँ उनके पीछे-पीछे चले जाना। जब वे किसी एकान्त स्थानमें पहुँचें तो हाथ जोड़कर उनके शरणार्थ हो जाना। यदि पूछें 'कितने तुम्हें मेरा पता बताया है?' तो कह देना कि 'नारदजीने बताया है। आप महात्मा संवर्त हैं।'

यह सुनकर राजर्षि मरुतने 'बहुत अच्छा' बहकर नारदजीकी आज्ञा स्वीकार की और उनको पूजा करके उनसे जानेकी आज्ञा ले वे यारदणसीपुरीकी ओर चल दिये। वहाँ जाकर नारदजीके कथनका स्मरण करते हुए उन्होंने

काशीपुरीके द्वारपर एक मुर्दा लाकर रखता। इसी समय विप्रवर संवर्त भी वहाँ आये; किंतु उस मुर्देको देखकर सहसा पीछे सौट पड़े। यह देखकर अविश्वामित्र राजा मरुत संवर्त मुनिले शिशा सेनेके लिये हाथ जोड़े उनके पीछे-पीछे गये। एकान्तमें पहुँचनेपर राजाको अपने पीछे-पीछे आते देख संवर्त मुनि बहुत-सी शाखाओंसे युक्त एक बरगदके सधन बृक्षकी शीतल छायामें बैठ गये और बहने लगे—'राजन्! तुमने मुझे कैसे पहचाना है? कितने तुम्हें मेरा परिचय दिया है? यदि सच-सच बता लोगे तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तकके सिरुई टुकड़े हो जायेंगे।'



मरुतने कहा—'मुने! नारदजीने मुझे रातमें आपका पता और परिचय दिया है। आप मेरे गुरु अङ्गिराके पुत्र हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है।'

संवर्तने कहा—'राजन्! तुम ठीक कहते हो। नारदको यह मालूम है कि मैं यज्ञ कराना जानता हूँ। किंतु मेरा स्वभाव तो अपनी भोजसे भाव करनेका है—मैं शिशीके अधीन नहीं रहता, अतः तुम मुझसे बर्गों यज्ञ कराना चाहते हो? मेरे भाई बृहस्पति इस काणमें पूर्ण सन्तप हैं। आज्ञासम्पन्न इन्द्रके साथ उनका बड़ा भक्त-जोत है। वे उनके यज्ञ आदि कामें कराना करते हैं, इसलिये उन्होंने अपना यज्ञ कराने पर-भृहस्पतिका सारा सामान, यज्ञमान तथा मुँ

पूजन आदि कर्म—इन सबको इस समय मेरे बड़े भाईने अपने अधिकारमें कर लिया है। मेरे पास तो केवल मेरा यह शरीर ही छोड़ रखना है।

मरुत्तने कहा—ब्रह्मन् ! मैं पहले बृहस्पतिजीके ही पास गया था। वहाँका समाचार बताता हूँ, सुनिये। वे इन्द्रको प्रसन्न रखनेकी इच्छासे अब मुझे अपना यजमान बनाना नहीं चाहते। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि 'अमर (देवता) यजमान पाकर अब मैं मनुष्यका यज्ञ नहीं कराऊँगा, साथ ही इन्द्रने मना भी किया है कि आप मरुत्तका यज्ञ न कराइयेगा।' इन्द्रकी इस बातको आपके भाईने स्वीकार कर लिया है। अतः अब मेरी इच्छा यह है कि मैं सर्वस्व देकर भी आपसे ही यज्ञ कराऊँ और आपके द्वारा सम्पादित गुणोंके प्रभावसे इन्द्रको भी मात कर दूँ। अब बृहस्पतिके पास जानेका मेरा विचार नहीं है; क्योंकि विना अपराधके ही उन्होंने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी है।

संवर्तने कहा—राजन् ! यदि मेरी इच्छाके अनुसार काम करो तो तुम जो कुछ चाहोगे वह सब निश्चय ही पूर्ण होगा। जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा तो इन्द्र और बृहस्पति

दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे। उस समय तुम्हें मेरे पक्षका समर्थन करना होगा; किंतु इस बातका मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे। अतः जैसे भी हो मेरे मनका यह संशय दूर करो, नहीं तो अभी श्रोधमें भरकर मैं बन्धु-बान्धवोंसहित तुम्हें भस्म कर डालूँगा।

मरुत्तने कहा—ब्रह्मन् ! यदि मैं आपका साथ छोड़ दूँ तो जबतक सूर्य तपते हों और जबतक पर्वतोंकी स्थिति वनी रहे, तबतक मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति न हो तथा मैं कभी भी अच्छी बुद्धि न प्राप्त कर सकूँ।

संवर्तने कहा—राजन् ! तुम्हारी उत्तम बुद्धि सदा शुभ कर्मोंमें लगी रहे। अब मेरी बात सुनो—मेरे मनमें भी तुम्हारा यज्ञ करानेकी इच्छा है; अतः इसके लिये तुम्हें अक्षय धनकी प्राप्तिका उपाय बतलाऊँगा। उस धनसे तुम गन्धर्वों-सहित देवताओं और इन्द्रको भी नीचा दिखा सकोगे। मैं सच कहता हूँ, मुझको अपने लिये धन अथवा यजमानोंके संग्रहका लोभ नहीं है। मैं तो तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हें इन्द्रकी वरावरीमें विठाऊँगा।

संवर्तका मरुत्तको सुवर्णकी प्राप्तिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश करना, मरुत्तकी सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना और उनकी प्रेरणासे इन्द्रका मरुत्तके पास अग्निको भेजना

संवर्त कहते हैं—राजन् ! हिमालयके पृष्ठभागमें मृञ्जवान् नामक एक पर्वत है, जहाँ भगवान् शंकर सदा तपस्या किया करते हैं। उस पर्वतपर रुद्रगण, साध्यगण, विश्वेदेव, वसुगण, यमराज, वरुण, अनुचरोंसहित कुबेर, भूत, पिशाच, अश्विनो कुमार, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, देवर्षि, आदित्य, मरुत् और यातुधानगण सब ओरसे घेरकर उमापति महादेवजीकी उपासना करते रहते हैं। उनका श्रीविग्रह तेजसे जाज्वल्यमान रहता है। संसारका कोई भी प्राणी अपने चर्म-चक्षुओंसे उनके स्वरूपको नहीं देख सकता। वहाँ न तो अधिक गर्मी पड़ती है, न विशेष ठण्डक। न वायुका प्रकोप होता है न सूर्यके प्रचण्ड तापका। उस पर्वतके ऊपर किसीको भूल और प्यास नहीं सताती, बुढ़ापा और मृत्युका प्रवेश नहीं होने पाता तथा दूसरा कोई भय भी नहीं रहता। उस पर्वतके चारों ओर सूर्यकी किरणोंके समान चमकते हुए सुवर्णके अनेकों शिखर हैं। अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित कुबेरके अनुचर अपने स्वामीका प्रिय करनेके लिये उन सुवर्ण-

शिखरोंकी सदा रक्षा करते हैं। वहाँ जानेके बाद तुम पहले जगद्-विधाता भगवान् शंकरको नमस्कार करके फिर इस प्रकार स्तुति करना—'भगवान् ! आप रुद्र (दुःखके कारणको दूर करनेवाले), शितिकण्ठ, (गलेमें नील चिह्न धारण करनेवाले), पुरुष (अन्तर्यामी), सुवर्चा (अत्यन्त तेजस्वी), कपर्दी (जटाजूटधारी), कराल (भयंकर रूपवाले), हर्यक्ष (हरे नेत्रोंवाले), वरद (भक्तोंको अभीष्ट वर प्रदान करनेवाले), व्यक्ष (त्रिनेत्रधारी), पूषाके दांत उखाड़नेवाले, वामन, शिव, याम्य (यमराजके गणस्वरूप), अव्यक्तरूप, सद्बृत्त (सदाचारी), शंकर, क्षेम्य (कल्याणकारी), हरिकेश (भूरे केशोंवाले), स्थाणु (स्थिर), पुरुष, हरिनेत्र, मुण्ड, क्रुद्ध, उत्तरण (संसार-सागरसे पार उतारनेवाले), भास्कर (सूर्यरूप), सुतीर्थ (पवित्र तीर्थरूप), देवदेव, रंहस् (वेगवान्), उष्णीषी (तिरपर पगड़ी धारण करनेवाले), सुवक्त्र (सुन्दर मुखवाले), सहस्राक्ष (हजारों नेत्रोंवाले), मीढ्वान् (कामपूरक अथवा नन्दिकेश्वर वृषभ),

गिरिश (पर्वतपर शयन करनेवाले), प्रगल्भ, यति (संपत्ती), चौरपाता (चौरबस्त्र धारण करनेवाले), बिल्बदण्ड (बेलका डंडा धारण करनेवाले), सिद्ध, सर्वदण्डधर (सबको दण्ड देनेवाले), मृगव्याध (आर्द्र नक्षत्ररूप), महान्, धन्वी (पिनाकनाभक धनुष धारण करनेवाले), भव (संसारकी उत्पत्ति करनेवाले), वर (भंड), सोमवक्त्र (चंद्रमाके समान मुखवाले), सिद्धमन्त्र (जिन्होंने सभी मन्त्र सिद्ध कर लिये हैं, ऐसे), चतुष् (नेत्ररूप), विष्णुबाहु (सुवर्णके समान सुन्दर भुजाओंवाले), उष (भयंकर), दिशाओंके पति, तैलहान (अग्निहपसे अपनी जिह्वाओंके द्वारा हविष्यका आस्वादन करनेवाले), गोष्ठ (गी अथवा वाणोंके निवास-स्थान), सिद्धमन्त्र, वृष्णि (कामनाओंकी वृद्धि करनेवाले), पशुपति, भूतपति, वृष (धर्मस्वरूप), मातृभवत, सेवानो (कार्तिकेयरूप), मध्यम, खूबहस्त (हाथमें खूबा ग्रहण करनेवाले ऋत्विजस्वरूप), पति (सबका पालन करनेवाले), धन्वी, भ्रागंव, अज (जगमरहित), कृष्णनेत्र, विरुपाक्ष, तीक्ष्णदंष्ट्र, तीक्ष्ण, धंसवानरमुख (अग्निहप मुखवाले), महाद्युति, अनङ्ग (निराकार), सर्व, विशाम्यति (सबके स्वामी), विलोहित (रक्तवर्ण), दोष (तेजस्वी), दीप्ताक्ष (देवीप्यमान नेत्रोंवाले), महोजा (महाबली), वसुरेता (हिष्णुवीर्य अग्निहप), सुवपुष्प (सुन्दर शरीरवाले), पुष्प (स्पूल), कृत्तिवासा (मृगचर्म अथवा भोजयत्र धारण करनेवाले), कपालमाती (मुण्डमाता धारण करनेवाले), सुवर्णमुकुट, महादेव, कृष्ण (सर्विद्वानन्दस्वरूप), व्यम्बक (त्रिनेत्रधारो), अनघ (निष्पाप), श्लोघन (दुष्टोंपर क्रोध करनेवाले), अनृशंस (कोमल स्वभाववाले), मूड, बाहुशाली, दण्डी, तप्ततपा (तपस्वी), अक्रूरकर्मा (कठोर कर्मसे दूर रहनेवाले), सहस्रशिखा (हजारों मस्तकवाले), सहस्रचरण, स्वधास्वरूप, बहुहप और दंष्ट्री नाम धारण करनेवाले हैं। आपकी मेरा प्रणाम है। इस प्रकार उन पिनाकधारो महादेव, महायोगी, अविनाशो, हायमें त्रिशूल धारण करनेवाले, वरदायक, व्यम्बक, भुवनेश्वर, त्रिपुरापुरको भारतीयवाले, त्रिनेत्रधारो, त्रिभुवनके स्वामी, महान् बलवान्, सब जीवोंकी उत्पत्तिके कारण, सबको धारण करनेवाले, पुष्पीका भार संभालनेवाले, जगत्के शासक, कल्पयाणकारी, सर्वहप, कल्याणस्वरूप, विश्वेश्वर, जगत्को उत्पन्न करनेवाले, पार्वतीके पति, पशुओंके पालक, विश्वरूप, भृशेश्वर, विरुपाक्ष, दत्त भुजाधारी, अपनी ध्वजामें दिव्य मृगमका चिह्न धारण करनेवाले, उष, स्याणु, सिय, यद्र, शयं, गौरीश, ईश्वर, शितिकण्ठ, अजन्मा, शुक्र, पुष्प, पुष्पहर, वर, विश्वरूप, विरुपाक्ष, बहुहप, उमापति, कामदेवकी मत्स्य करनेवाले,

हृ, चतुर्मुख एवं शरणागतवत्सल महादेवजीको निरते प्रणाम करके उनके शरणागत हो जाना। राजन्! ये महान् देवता, महाविगवान् और महामना हैं। उनके चरणोंमें मस्तक मुकानेसे तुम्हें सुवर्णको प्राप्त होगी। सुवर्ण सनिके लिये तुम्हारे सेवकोंको भी बड़ा जाना चाहिये।

संवतंका यह वचन सुनकर राजा मरुतने बंसा ही किया। इसीसे वे यज्ञका सारा सम्भार अलौकिक रूपसे करने लगे। उनके कारीगरोंने वहाँ रहकर सोनेके बहुतसे पात्र तैयार किये। उधर बृहस्पतिने जब सुना कि राजा मरुतको देवताओंसे भी बड़कर सम्पत्ति प्राप्त हुई है तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे चिन्ताके भारे पीले पड़ गये और यह सोचकर कि 'मेरा शत्रु संवतं बहुत धनी हो जायगा' उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया। देवराज इन्द्रने जब सुना कि बृहस्पतिजी अत्यन्त संतप्त हो रहे हैं तो वे देवताओंको साथ लेकर उनके पास गये और इस प्रकार पूछने लगे—'बिप्रवर! आपको यह मानसिक अथवा शारीरिक दुःख कंठे प्राप्त हुआ है? आप उदास और पीले क्यों हो रहे हैं? यतानेकी कृपा कीजिये, मैं आपको दुःख देनेघातोंका नाश कर दलूँगा।'

बृहस्पतिजीने कहा—'इन्द्र! लोग कहते हैं कि महाराज मरुत उत्तम क्षिणाओंसे युक्त एक महान् यज्ञकी तैयारी कर रहे हैं तथा यह भी सुननेमें आया है कि संवतं ही आचार्य होकर यह यज्ञ करायेंगे। किन्तु मेरी इच्छा है कि संवतंके आचार्यत्वमें उस यज्ञका अनुप्यव न होने पाये।

इन्द्रने कहा—'गृध्रदेव! आप तो देवताओंके पुरोहित हैं। आपने जरा और मृत्यु दोनोंको जीत लिया है, फिर संवतं आपका क्या बिगाड़ सकते हैं?

बृहस्पतिजीने कहा—'देवराज! शत्रुओंकी सम्पृद्धि दुःखका कारण होती है। मेरा शत्रु संवतं सम्पृद्धिमानो होना चाहता है, यही सुनकर मैं उदास हो रहा हूँ। तुम कोई-न-कोई उपाय करके संवतं अथवा राजा मरुतको बंध कर लो।

यह सुनकर इन्द्रने अग्निदेवतासे कहा—'अग्निदेव! यहाँ आओ, मैं तुम्हें राजा मरुतके पास भेजता हूँ। उनको सम्पत्ति लेकर बृहस्पतिजीको उनके पास पहुँचा दो। वहाँ जाकर राजासे कहना कि बृहस्पतिजी ही आपका यज्ञ करायेंगे तथा वे आपको अमर भी कर देंगे।'

अग्निदेवने कहा—'समभवन्! मैं बृहस्पतिजीको मरुतके पास पहुँचा आनेके लिये आपका दूत बनकर जाऊँगा और ऐसा करके आपकी आज्ञाका पालन तथा बृहस्पतिजीका सम्मान करूँगा।

यह कहकर धूमपप ध्वजवाले महात्मा अग्निदेव ग्रहमें चल विपे। उन्हें आते देत भदत्तने संवतंसे कहा—'भूने!

में हाथ जोड़ता हूँ। वे देवराज इन्द्रके पुरोहित हैं। मेरे-जैसे मनुष्यका यज्ञ कराना उन्हें शोभा नहीं देगा।

अग्निदेवने कहा—राजन् ! यदि बृहस्पतिजी आपका यज्ञ करायेंगे तो देवराज इन्द्र प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होनेपर देवलोकके भीतर जितने बड़े-बड़े लोक हैं, वे सब आपके लिये सुलभ हो जायेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप यशस्वी होनेके साथ ही स्वर्गपर भी विजय प्राप्त करेंगे। दिव्यलोक, प्रजापतिलोक और देवताओंके राज्यपर भी आपका पूरा अधिकार हो जायगा।

संवर्तने कहा—अग्ने ! मैं तुम्हें सावधान किये देता हूँ, बृहस्पतिको मरुत्तके पास पहुँचानेके लिये फिर कभी मत आना। नहीं तो क्रोधमें भरकर मैं अपनी वारुण वृष्टिसे तुम्हें भस्म कर डालूँगा।

संवर्तकी बात सुनकर अग्निदेव भस्म होनेके भयसे पीपलके पत्तेकी तरह कांपने लगे और तुरंत लौटकर देवताओंके पास चले गये। उन्हें लौटे देख इन्द्रने बृहस्पतिजीके सामने ही पूछा—‘अग्निदेव ! तुम तो मेरी आज्ञासे बृहस्पतिजीको राजा मरुत्तके पास पहुँचानेका संदेश लेकर गये थे। बताओ, वे क्या कहते हैं ? उन्हें मेरी बात स्वीकार है या नहीं ?’

अग्निने कहा—देवराज ! राजा मरुत्तको आपकी बात पसंद नहीं आयी। बृहस्पतिजीको तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कहलाया है। मेरे बारंबार अनुरोध करनेपर भी उन्होंने यही उत्तर दिया है कि ‘संवर्तजी ही मेरा यज्ञ करायेंगे।’

इन्द्रने कहा—अग्निदेव ! एक बार फिर जाकर राजा मरुत्तसे मेरी बात कहो। यदि अब भी वे नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर वज्रका प्रहार करूँगा।

अग्निने कहा—देवराज ! ये गन्धर्वोंके राजा यहाँ मौजूद हैं। इन्हींको दूत बनाकर भेजिये। मुझे तो वहाँ जाते डर लगता है; क्योंकि ब्रह्मचारी संवर्तने बड़े क्रोधमें आकर मुझसे कहा था कि ‘अग्ने ! यदि फिर बृहस्पतिको मरुत्तके पास पहुँचानेके लिये आओगे तो मैं क्रोधमयी वारुण वृष्टिसे तुम्हें भस्म कर डालूँगा।’

इन्द्रने कहा—अग्निदेव ! तुम्हारी बातपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि तुम्हीं दूसरोंको भस्म करते हो। तुम्हें भस्म करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे स्पर्शसे सभी लोग डरते हैं।

अग्निने कहा—महेन्द्र ! जरा राजा शर्यातिके यज्ञका तो स्मरण कीजिये, जहाँ च्यवन मुनि यज्ञ करानेवाले थे। आप क्रोधमें भरकर उन्हें मना करते ही रह गये और उन्होंने अकेले अपने ही प्रभावसे अश्विनोकुमारोंके साथ सोम-रसका



बड़े आश्चर्यकी बात है कि आज अग्निदेव मूर्तिमान् होकर यहाँ पधारे हैं। आज हमें इनका साक्षात् दर्शन मिला। आप इनके स्वागतके लिये आसन, पाद्य, अर्घ्य और गौ प्रस्तुत कीजिये।’

अग्निने कहा—राजन् ! मैं आपके दिये हुए पाद्य, अर्घ्य और आसन आदिको पा चुका। इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समय मैं इन्द्रकी आज्ञासे दूत बनकर आपके पास आया हूँ।

मरुत्तने कहा—अग्निदेव ! श्रीमान् देवराज सुखी तो हैं न ? वे मुझसे संतुष्ट तो हैं ? सम्पूर्ण देवता उनकी आज्ञाके अधीन रहते हैं न ? ये सब बातें मुझे ठीक-ठीक बताइये।

अग्निदेवने कहा—राजन् ! देवराज इन्द्र बड़े सुखसे हैं और आपके साथ अटूट मैत्री जोड़ना चाहते हैं। सम्पूर्ण देवता भी उनके अधीन ही हैं। अब, उन्होंने जिस कामके लिये मुझे आपके पास पठाया है, उसे सुनिये। वे मेरे द्वारा बृहस्पतिजीको आपके पास भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ‘बृहस्पतिजी आपके गुरु हैं, अतः ये ही आपका यज्ञ करायेंगे। आप भरणधर्मा मनुष्य हो, ये आपको अमर बना देंगे।’

मरुत्तने कहा—भगवन् ! मेरा यज्ञ करानेके लिये ये विप्रवर संवर्तजी यहाँ उपस्थित हैं। बृहस्पतिजीके लिये तो

पान किया। उस समय आप अत्यन्त भयंकर बच्च लेकर मुनिके ऊपर प्रहार करना चाहते थे; किन्तु उन्होंने कुपित होकर अपने तपोबलसे आपको बाँहको बच्चसहित जकड़ दिया। तब भयभीत होकर आपको फिर उन्हीं मर्हणिकी

शरणमें जाना पड़ा था। अतः ब्रह्मबलसे ब्रह्मबल ही धोखे है। ब्रह्मबलसे बड़कर दूसरा कोई भी बल नहीं है। मैं ब्रह्मतेजकी अच्छी तरह जानता हूँ, अतएव मुझे संघर्षकी जीतनेका साहस नहीं होता।

इन्द्रका गन्धर्वराजको भेजकर मरुतकी भय दिखाना और संघर्षका मन्त्रबलसे सब देवताओंको बुलाकर मरुतका यज्ञ पूर्ण करना

इन्द्रने कहा—यह ठीक है कि ब्रह्मबल सबसे बड़कर है। ब्राह्मणसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है; किन्तु मैं राजा मरुतके बलकी नहीं सह सकता। उनके ऊपर अवश्य अपने घोर बच्चका प्रहार करूँगा। गन्धर्वराज धृतराष्ट्र! अब तुम मेरे कहनेसे वहाँ जाओ और संघर्षके साथ मिले हुए राजा मरुतसे कहो—‘राजन्! आप बृहस्पतिको अपने यज्ञका आचार्य बनाइये। अन्यथा देवराज इन्द्र आपके ऊपर घोर बच्चका प्रहार करेंगे।’

इन्द्रकी आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र राजा मरुतके पास गये और उनसे इन्द्रका संदेश इस प्रकार कहने लगे—‘महाराज! मैं धृतराष्ट्रनामक गन्धर्व हूँ और आपसे देवराज इन्द्रका संदेश सुनाने आया हूँ। सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी इन्द्रने कहा है कि आप बृहस्पतिको अपने यज्ञका पुरोहित बनाइये। यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपपर भयंकर बच्चसे प्रहार करूँगा।’

मरुतने कहा—गन्धर्वराज! आप, इन्द्र, विरवदेव, वसु और अश्विनोत्तुमार आदि सभी देवता इस बातकी जानते हैं कि मित्रके साथ द्रोह करनेपर ब्रह्महत्याके समान महान् पाप लगता है। उससे छुटकारा पानेका संसारमें कोई उपाय नहीं है। अतः मेरा यज्ञ तो अब संघर्षकी ही करायेंगे। बृहस्पतिकी देवताओं और बच्चधारियोंमें श्रेष्ठ इन्द्रका यज्ञ करायें। इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मानूँगा और न इन्द्रकी ही।

गन्धर्वराजने कहा—महाराज! इन्द्र आकाशमे गर्जना कर रहे हैं। उनका भयंकर सिंहनाव सुनिये। जान पड़ता है अब वे आपके ऊपर बच्च छोड़ना ही चाहते हैं; अतः आप अपनी रक्षाका उपाय सोचिये; इसके लिये यही समय है।

गन्धर्वराज धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर राजा मरुतने आकाशमें सिंहनाव करते हुए इन्द्रकी आवाज सुनकर तपःपरायण संघर्ष मूढिते कहा—‘विप्रवर! मैं आपकी शरणमें हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे अशप-दान दें। देखिये, ये



बच्चधारी इन्द्र दसों दिशाओंकी प्रकाशित करते हुए चले आ रहे हैं। इनके भयंकर सिंहनावसे हमारी यज्ञशासकें सभी सदस्य पराँ उठे हैं।’

संघर्षकी कहा—राजन्! इन्द्रसे भय न करो। मैं स्तम्भित दिशाका प्रयोग करके बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आनेवाले इस भयंकर संघर्षको दूर किये देता हूँ। विरवाम रक्षको और इन्द्रसे पराजित होनेका भय छोड़ दो। मैं अभी उन्हें स्तम्भित करता हूँ तथा सम्पूर्ण देवताओंके अस्त्र-शस्त्र भी मैंने क्षीण कर दिये हैं।

मरुतने कहा—विप्रवर! आँधीके साथ ही जोर-जोरसे होनेवाली बच्चकी भयंकर गड़गड़हट सुनायी दे रही

है। इससे रह-रहकर मेरा हृदय कांप उठता है। आज मनमें तनिक भी शान्ति नहीं है।

संवर्तने कहा—राजन्! तुम्हें इन्द्रके भीषण वज्रसे तो कदापि भय नहीं करना चाहिये। मैं अभी वायुका रूप धारण करके इस वज्रको निष्फल किये देता हूँ। इस भयको छोड़ो और मुन्त्से दूसरा कोई वर मांगो। वताओ, तुम्हारी कौन-सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूँ?

मरुत्तने कहा—ब्रह्मर्षे! अब ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे साक्षात् इन्द्र मेरे यज्ञमें शीघ्रतापूर्वक पधारें और अपना भाग ग्रहण करें। साय ही अन्य देवता भी आकर अपने-अपने स्थानपर बैठ जायें तथा सब लोग एक साय सोम-रसका पान करें।

तदनन्तर, संवर्तने अपने मन्त्र-बलसे समस्त देवताओंका आवाहन किया। फिर तो इन्द्र अपने रथमें अच्छे-अच्छे घोड़े जोतकर देवताओंको साय ले सोम-पानकी इच्छासे अनुपम पराक्रमी राजा मरुत्तकी यज्ञशालामें आ पहुँचे। देववृन्दके साय इन्द्रको आते देख राजा मरुत्तने अपने पुरोहित संवर्त मुनिके साय आगे बढ़कर उनकी अगवानो की और बड़ी प्रसन्नताके साय शास्त्रीय विधिते उनका अग्रपूजन किया।

संवर्तने कहा—देवराज! आपका स्वागत है। आपके शुभागमनसे इस यज्ञकी शोभा बढ़ गयी। मेरे द्वारा तैयार किया हुआ यह सोम-रस प्रस्तुत है। आप इसका पान कीजिये।

मरुत्तने कहा—सुरेन्द्र! आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझपर कल्याणमयी दृष्टि रखिये। आपके पधारनेसे मेरा यज्ञ और जीवन सफल हो गया। ये संवर्तजी मेरा यज्ञ करा रहे हैं।

इन्द्रने कहा—नरेन्द्र! आपके गुरु संवर्तजीको मैं जानता हूँ। ये बृहस्पतिजीके छोटे भाई और तपस्याके धनी हैं। इनका तेज दुस्तह है। इन्हींके आवाहनसे मुझे यहाँ आना पड़ा है। अब मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है और मैं आपपर विशेष प्रसन्न हूँ।

संवर्तने कहा—देवराज! यदि आप प्रसन्न हैं तो यज्ञमें जो-जो कार्य आवश्यक हैं, उसका स्वयं ही उपदेश दीजिये तथा स्वयं ही सब देवताओंके भाग निश्चित कीजिये।

संवर्तके यों कहनेपर इन्द्रने देवताओंको आज्ञा दी कि तुम सब लोग अत्यन्त समृद्ध एवं चित्र-विचित्र ढंगके अच्छे-अच्छे सभा-भवन बनाओ, जिससे यह यज्ञशाला स्वर्गके समान मनोहर जान पड़े। यह सुनकर समस्त देवताओंने शीघ्र ही इन्द्रकी आज्ञाका पालन किया। तत्परचात् इन्द्रने प्रसन्न होकर राजा मरुत्तकी प्रशंसा करते हुए कहा—‘राजन्! यहाँ मेरे साय तुम्हारे पूर्वज और सम्पूर्ण देवता भी प्रसन्नतापूर्वक एकत्रित हुए हैं। ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ हविष्य ग्रहण करेंगे।’

तदनन्तर, द्वितीय अग्निके समान तेजस्वी महात्मा संवर्तने उच्च स्वरसे मन्त्र पढ़ते हुए देवताओंके नाम ले-लेकर अग्निमें हविष्यका हवन किया। इसके बाद इन्द्र तथा सोमपानके अधिकारी अन्य देवताओंने उत्तम सोमरसका पान किया। इससे सबको तृप्ति और प्रसन्नता हुई। फिर सब देवता राजा मरुत्तकी अनुमति लेकर अपने-अपने स्थानको चले गये। तब राजाने बड़े हर्षके साय वहाँ पग-पगपर सुवर्णकी ढेरी लगवायी और ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दान किया। उस समय धनाधिपति कुबेरके समान उनकी शोभा हो रही थी। तत्परचात् ब्राह्मणोंके ले जानेसे जो धन बच गया, उसको मरुत्तने एक स्थानपर जमा कर दिया। फिर अपने गुरु संवर्तकी आज्ञा लेकर वे राजधानीको लौट आये और समुद्र-पर्यन्त पृथ्वीका राज्य करने लगे। युधिष्ठिर! राजा मरुत्त ऐसे प्रभावशाली थे। उनके यज्ञमें बहुत-सा सुवर्ण एकत्रित किया गया था। तुम उसी धनको संगवाकर यज्ञके द्वारा देवताओंको तृप्त करो।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! सत्यवतीनन्दन व्यासजीके वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धनके द्वारा यज्ञ करनेका विचार किया।

भगवान् श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको समझाना, ऋषियोंका अन्तर्धान होना और भीष्म आदिका श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरमें जाना।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! अद्भुत कर्म करने-वाले वेदव्यासजी जब राजा युधिष्ठिरको सान्त्वना दे चुके तो भी उन्हें बन्धु-बान्धवोंके मरनेसे अत्यन्त दुखी जानकर महा-तेजस्वी भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार समझाना आरम्भ

किया—‘धर्मराज! कुटिलता मृत्युका स्थान है और सरलता ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाली है, इस बातको ठीक-ठीक समझ लेना ही ज्ञान है; इसके विपरीत जो कुछ है वह कोरी बकवाद है। भला, उससे किसीको क्या लाभ

होगा ? इस समय आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना है, यह युद्ध सामने उपस्थित है; अतः उसके लिये आपको तैयार हो जाना चाहिये। अपने कर्तव्यका पालन करते हुए योगके द्वारा मनको वशीभूत करके आप इस मायामय जगत्के पार—परब्रह्मको प्राप्त कीजिये। मनके साथ होनेवाले इस युद्धमें अस्त्र-शस्त्र, सेवक तथा बन्धु-बान्धवोंका काम नहीं है, इसमें आपको अकेले लड़ना है। यदि इस संग्राममें आप मनको परास्त न कर सके तो पता नहीं, आपकी क्या दशा होगी ? इस बातको अच्छी तरह समझ लेनेपर आप कृतार्थ हो जायेंगे। समस्त प्राणी यों ही अति-जाते (जन्मते-मरते) रहते हैं। ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप-दादोके बर्तव्यका पालन करते हुए उचित रीतसे राज्यका शासन कीजिये। भारत ! केवल (राज्य आदि) बाह्य पदार्थोंका त्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती। बाह्य पदार्थोंसे अलग होकर भी जो शारीरिक सुख-विलासमें आसक्त है, उसको जिस धर्म और सुखकी प्राप्ति होती है, वह सुन्दर शब्दोंको ही प्राप्त हो। 'मम' (मेरा) ये दो अक्षर ही मृत्युकी प्राप्ति करानेवाले हैं और 'न मम' (मेरा नहीं है) यह तीन अक्षरोंका पद सनातन ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण है। ममता मृत्यु है और उसका त्याग अमृतत्व। चराचर प्राणिमोक्षहित समूची पृथ्वीको पाकर भी जिसकी उसमें समता नहीं होती, उस पुरुषको वह क्या हानि कर सकती है ? किंतु धनमें रहकर जंगली फल-मूलोंसे जीवन-निर्वाह करते हुए भी जिसकी इच्छामें ममता बनी हुई है, वह तो मृत्युके सुखमें ही पड़ा हुआ है। आप बहुरी और भीतरी शब्दोंके स्वभावपर दृष्टिपात कीजिये (अर्थात् वे सब मायामय होनेके कारण मिथ्या हैं ऐसा निश्चय कीजिये)। जो मायिक पदार्थोंको ममत्वकी दृष्टिसे नहीं देखता, वह महान् भयसे छुटकारा पा जाता है। जिसका मन कामनाओंमें आसक्त है, उसकी संसारमें प्रतिष्ठा नहीं होती। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामनाके नहीं होती और समस्त कामनाएँ मनमें ही प्रकट होती हैं। विद्वान् पुरुष कामनाओंको दुःखका कारण जानकर उनका परित्याग कर देते हैं। योगी पुरुष अनेक जन्मोंके अभ्याससे योगको ही मोक्षका मार्ग निश्चित करके कामनाओंका नाश कर डालता है। जो इस बातको जानता है वह दान, वेदाध्ययन, तप, वैदोक्त-कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यानयोग आदिका कामनापूर्वक अनुष्ठान नहीं करता और जिस कर्मसे वह कुछ कामना रखता है, वह धर्म नहीं है। वास्तवमें कामनाओंका निग्रह ही धर्म है और यही मोक्षका बीज है।

“इस विषयमें प्राचीन बातोंके जानकार विद्वान् 'काम-

गीता' के नामसे प्रसिद्ध एक प्राचीन गाथाका वर्णन किया करते हैं, उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिये। कामना बहती है—कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय (निर्ममता और योगाभ्यास) का आश्रय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपनेमें अस्त्र-शस्त्री अधिष्ठताका अनुभव करके मुझे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है, उसके उस अस्त्र-शस्त्रमें मैं अभिमानके रूपमें प्रकट होती हूँ। जो नाना प्रकारकी दक्षिणावादी यज्ञोंद्वारा मुझे मारनेका उद्योग करता है, उसके चित्तमें मैं बैते ही उत्पन्न होती हूँ जैसे उत्तम योनिधर्मोंमें धर्मता। जो वेद और वेदान्तके स्वाध्यायरूप साधनोंके द्वारा मुझे दबानेको कोशिश करता है, उसके मनमें मैं एवावर प्राणियोंमें जोवात्माकी भाँति अद्वयनरूपसे निवास करती हूँ। जो सत्यपराक्रमी पुरुष धर्मके बलसे मुझे मिटानेका यत्न करता है, उसके मानसिक भावोंके साथ मैं इतनी घुस-भिस जाती हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता। जो उत्तम प्रतीक आचरण करनेवाला पुरुष तपस्याके द्वारा मेरे अस्तित्वको मिटानेका प्रयास करता है, उसकी तपस्यामें ही मैं प्रकट हो जाती हूँ। जो मोक्षकी अभिलाषा रखकर मेरे विनाशका यत्न करता है, उसको मोक्षके प्रति आसक्तिका विचार करके मुझे हँसी आती है तथा मैं लुशीके मारे नाचने लगती हूँ। मैं प्राणियोंके लिये अवश्य एवं सदा रहनेवाली हूँ। इसलिये राजन् ! आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणावाली यज्ञोंके द्वारा अपनी कामनाको धर्ममें सगा दीजिये। ऐसा करनेसे आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। विधिके अनुसार पर्याप्त दक्षिणा देकर आप अश्वमेध तथा अन्याय यज्ञोंका अनुष्ठान कीजिये। इससे आपकी इस लोकाँमें उत्तम कौर्ति और परलोकमें धेच्छ गति प्राप्त होगी।”

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण, वेदव्यास, देवस्थान, नारद, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा अन्याय धेच्छ पुरुषों और शास्त्रवेत्ता ब्राह्मणोंके समझाने-सुझानेपर युधिष्ठिरका शोक-जित्त झुल झूट हुआ और उन्होंने मानसिक चिन्ता छोड़कर देवताओं तथा ब्राह्मणोंका पूजन किया। तदनन्तर, मेरे हुए बन्धु-बान्धवोंका ध्याय करके वे समुद्रमंथन पुष्वोरा राज्य करने लगे। उस समय तबके समझानेपर जब उनका चित्त शान्त हुआ तो वे अपना राज्य स्वीकार करके व्यास, नारद तथा अन्याय मुनिवरोंसे बोले—महानुभाषो ! आप सब लोग युद्ध और मृनिधर्मोंमें धेच्छ हैं। आपकी बातोंसे मुझे बड़ी साम्त्वना मिली है। अब मेरे मनमें तनिक भी दुःख नहीं है। इधर पर्याप्त धन भी मिल गया, द्रिगले में भतीमार्ग देवताओंका पूजन कर सकूँगा। अब भारतगोर्तिके ही सामने

यज्ञ आरम्भ कहेगा। पितामह (व्यासजी) ! हमलोग आपकी ही रक्षामें रहकर हिमालय पर्वतपर चलेंगे। सुना जाता है वहाँका प्रदेश अनेकों आश्चर्यजनक दृश्योंसे भरा हुआ है। आपने, देवर्षि नारदने तथा मुनिवर देवस्थानने बहुत-सी अब्भूत बातें बतायी हैं, जो मेरा कल्याण करनेवाली हैं। महान् सौभाग्यशाली पुरुषको छोड़कर दूसरे किसीको संकटकके समय आप-जैसे साधु-सम्मानित हितैषी गुरुजनोंका दर्शन सुलभ नहीं होता।

राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करनेपर

सभी महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकी अनुमति लेकर वे सबके देखते-देखते वहाँसे अन्तर्धान हो गये। इस प्रकार सभी पाण्डव भीष्मकी मृत्युके बाद शौच-कार्य सम्पन्न करते हुए कुछ कालतक वहीं रहे। उन्होंने भीष्म और कर्ण आदि कुर्यंशियोंके निमित्त औष्वदंहिक क्रिया (श्राद्ध) में ब्राह्मणोंको बड़े-बड़े दान दिये। तत्पश्चात् सबने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया और धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रजाचक्षु राजा धृतराष्ट्रको सान्त्वना देकर भाइयोंसहित पृथ्वीका राज्य करने लगे।

श्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना

जनमेजयने पूछा—विप्रवर ! जब पाण्डव विजयी हो गये और राज्यमें सब ओर शान्ति स्थापित हो गयी, उसके बाद श्रीकृष्ण और अर्जुनने क्या काम किया ?

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! पाण्डवोंने संग्राममें विजय पाकर जब राज्यमें सब ओर शान्ति फैला दी तो श्रीकृष्ण और अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे दोनों आनन्दित होकर विचित्र-विचित्र वनोंमें और पर्वतोंके सुरम्य शिखरोंपर विचरने लगे। घूम-फिरकर वे पुनः इन्द्रप्रस्थमें लौट आये और वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगे। वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषि नर और नारायण थे और आपसमें बहुत प्रेम रखते थे। एक दिन बातचीतके प्रसंगमें वे दोनों देवताओं और ऋषियोंके वंशकी चर्चा करने लगे। भगवान् श्रीकृष्ण सब प्रकारके सिद्धान्तोंको जाननेवाले थे। उन्होंने अर्जुनको विचित्र अर्थ और पदोंसे युक्त बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएँ सुनायीं। कथा समाप्त होनेपर श्रीकृष्णने अपनी युवितयुक्त और कोमल वाणीके द्वारा अर्जुनको सान्त्वना देते हुए-से कहा—‘पार्थ ! धर्मराज युधिष्ठिरने तुम्हारे बाहु-बलका सहारा लेकर और भीमसेन तथा नकुल-सहदेवके पराक्रमसे समूची पृथ्वीपर विजय पायी है। आज वे शत्रुहीन भूमण्डलका राज्य भोग रहे हैं। यह अकण्ठक साम्राज्य उन्हें धर्मके ही बलसे प्राप्त हुआ है। धृतराष्ट्रके पुत्र अधर्ममें रुचि रखनेवाले, लोभी, कटुवादी और दुरात्मा थे, इसलिये वे अपने बन्धु-बान्धवोंसहित मारे गये। अर्जुन ! तुम्हारे साथ रहनेपर तो मुझे निजंन वनमें भी सुख मिलता है। फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ कुन्ती हों, वहाँकी तो बात ही क्या है ? जहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, महाबली भीमसेन और

माद्रीनन्दन नकुल-सहदेव रहते हैं, वहाँ रहनेमें मुझे विशेष आनन्द मिलता है। इस सभा-भवनके रमणीय और पवित्र स्थान स्वर्गको भी मात कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत दिन बीत गये। इतने दिनोंतक पिताजी, भैया चलमद्रजी तथा अन्यान्य वृष्णिवंशियोंको मैंने नहीं देखा है। इसलिये अब द्वारकापुरीको जाना चाहता हूँ। आशा है तुम भी मेरे इस विचारसे सहमत होगे। महाबाहो ! यदि तुम उचित समझो तो महात्मा युधिष्ठिर के पास चलकर उनसे मेरे द्वारका जानेका प्रस्ताव करो। मेरे प्राणोंपर संकट आ जाय तब भी मैं धर्मराजका अप्रिय नहीं कर सकता, फिर द्वारका जानेके लिये उनका दिल दुखाऊँ, यह तो ही ही कैसे सकता है ? पार्थ ! मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया या कहा है, वह सब तुम्हारी प्रसन्नताके लिये और तुम्हारे ही हितकी दृष्टिसे किया है। अब यहाँ मेरे रहनेका प्रयोजन पूरा हो चुका है। धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन अपनी सेना और सहायकोंसहित मारा गया तथा समुद्रसे घिरी हुई सारी पृथ्वी, पर्वत, वन और काननोंसहित धर्मराजके अधीन हो गयी। इसलिये अब तुम मेरे साथ चलकर महाराजसे मुझे द्वारका जानेकी आज्ञा दिला दो। मेरे घरमें जो कुछ धन-सम्पत्ति है, वह और मेरा यह शरीर धर्मराजकी सेवामें समर्पित है। वे मेरे परम प्रिय और माननीय हैं। अब तुम्हारे साथ मन बहलानेके सिवा यहाँ मेरे रहनेका और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है।’

भगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अमितपराक्रमी अर्जुनने उनकी बातका आदर करते हुए बड़े दुःखके साथ उनके जानेका प्रस्ताव स्वीकार किया।

अर्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना और श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्ध महर्षि और कारयपका संवाद

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! शत्रुओंका नारा हो जानेके बाद जब महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन समाजमें बैठकर बात-साप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या-क्या बातचीत हुई ?

बैराग्यायनजीने कहा—राजन् ! श्रीकृष्णके सहित अर्जुनने जब अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा-मवनमें आनन्दके साप रहने लगे। एक दिन स्वर्गलोकसे घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छते धूमते-धूमते समागमणके ऐसे भागमें पहुँचे जो स्वर्गके समान सुन्दर था। पाण्डुनन्दन अर्जुन श्रीकृष्णके साप रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभाको ओर दृष्टि डालकर भगवान्से यह वचन कहा—दिवकीनन्दन ! जब युद्धका



अवसर उपस्थित था, उस समय मुझे आपके महात्म्यका ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूपका दर्शन हुआ था; किंतु केवय ! आपने स्नेहवशा पहले मुझे जो मानका उपदेश किया था, वह सब इस समय श्रद्धिके बोधसे भूल गया है। उन विषयोंको सुननेके लिये बारंबार मेरे मनमें उत्कण्ठा होती है, इ धर, आप जल्दी ही द्वारका जानेवाले हैं; अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिये।

बैराग्यायनजी कहते हैं—अर्जुनके ऐसा कहनेपर धर्मराजमें भेद्य महातेजस्वी भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें गतसे लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया।

श्रीकृष्ण बोले—अर्जुन ! उस समय मेने तुम्हें भयन्त गोपनीय विषयका ध्वषण कराया था, अपने स्वरूपभूत धर्म—सनातन पुण्योत्तमतत्त्वका परिचय दिया था और (शुभम-कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए) नित्य सोकोका भी वर्णन किया था; किंतु तुमने जो अपनी मासमन्त्रीके कारण उस उपदेशको याव नहीं रक्खा यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातोंका अर्थ पूरा-पूरा स्मरण होना सम्भव नहीं जान पड़ता। पाण्डुनन्दन ! निरध्वय ही तुम बड़े धडाहीन हो, तुम्हारी श्रद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिये उस उपदेशको धर्मोक्त-रूपमें बुझना बेना कठिन है; क्योंकि उस समय योग्यवक्त होकर मैंने परमात्मतत्त्वका वर्णन किया था। अब उस विषयका ज्ञान रूपनेके लिये मैं एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ। इससे तुम्हें भेद्य एवं स्थिर श्रद्धि प्राप्त होगी, जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गतिको पा जाओगे। एक दिनकी बात है, एक दुर्दय ब्राह्मण ब्रह्मसोकसे उत्तरकर मेरे यहाँ आये। मेने उनकी विधिवत् पूजा की और मोक्ष-धर्मके विषयमें प्रश्न किया। मेरे प्रश्नका उन्होंने बड़े अच्छे ढंगसे उत्तर दिया। यही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान लेकर सुनो।

ब्राह्मणने कहा—मयुसूदन ! तुमने सब प्राणियोंपर कृपा करनेके उनके मोहका नारा करनेके लिये जो यह मोक्ष-धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत् उत्तर दे रहा हूँ। सावधान होकर मेरी बात ध्वषण करो—प्राचीन समयमें कारयप नामके एक धर्मात्मा और तत्पक्षी ब्राह्मण किसी सिद्ध ब्रह्मणिके पास गये; जो धर्मके विषयमें शास्त्रके सम्पूर्ण रहस्योंको जाननेवाले, भूत और मन्त्रिके ज्ञान-विक्रान्तमें प्रवीण, लोक-नरपक्षके ज्ञानमें कुशल, गुप्त-वृत्तके रहस्यको समझनेवाले, जन्म-मृत्युके तत्त्व, पाप-पुण्यके ज्ञान और केंचनीच प्राणियोंको कर्मानुसार प्राप्त होनेवाली गतिके प्रत्यक्ष ब्रह्मा थे। वे मृत्युकी शक्ति विचरनेवाले, सिद्ध, शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, ब्रह्मतेजसे बेदीप्यमान, शत्रु का सत्करनेवाले और अन्तर्धान होनेकी विद्याको जाननेवाले थे। अक्षय रहनेवाले बध्मधारी सिद्धोंके साप विचरने, कानचीत करते और उन्हींके साप एशान्तमें बँटने थे। जैसे वायु बहती

आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वे स्वच्छन्दतापूर्वक अनासक्त भावसे सर्वत्र विचरते करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गये थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्मान्जलापी और एकाग्रचित्त महर्षिपति न्यायानुसार उन सिद्ध महात्माके चरणोंमें प्रणाम किया। वे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकारकी योग्यता थी। वे शास्त्रके ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यपको बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवामें लग गये और अपनी विशेष शुश्रूषा, गुणवक्ति तथा श्रद्धाभावके द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्माको संतुष्ट कर लिया। जनार्दन! अपने शिष्य काश्यपके ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षिपति परासिद्धिके सम्बन्धमें विचार करके जो उपदेश किया, उसे वताता हूँ, सुनो।

सिद्धने कहा—तात काश्यप! मनुष्य नाना प्रकारके गुण कर्मोंका अनुष्ठान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस लोकमें उत्तम फल और देवलोकमें न्यान प्राप्त करते हैं। जीवके कहीं भी अत्यन्त सुख नहीं मिलता। किसी भी लोकमें वह सब नहीं रहने पाता। तपस्या आदिके द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े-से-बड़े स्थानको क्यों न प्राप्त किया जाय, वहसि भी बार-बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम-क्रोधसे युक्त और तृष्णासे मोहित होकर अनेकों बार पाप किये हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देनेवाली अशुभ गतियोंको भोग है। बार-बार जन्म और बार-बार मृत्युका क्लेश उठाया है। तरह-तरहके पदार्थ भोजन किये और अनेकों स्तनोंका दूध पिया है। बहुत-से पिता और माँ-माँतिको माताएँ देखी हैं। विचित्र-विचित्र सुख-दुःखोंका अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनोंका वियोग और अप्रिय मनुष्योंका संयोग हुआ है। जिस धनको मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, वह मेरे देखते-देखते नष्ट हो

गया है। राजा और स्वजनोंकी ओरसे मुझे कई बार बड़े-बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यन्त दुःसह शारीरिक और मानसिक वेदनाएँ सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान, प्राणान्त दण्ड और कड़ी कैदकी सजाएँ भोगी हैं। नरकमें पड़कर यमलोककी यातनाएँ सहनी हैं। इस लोकमें जन्म लेकर बार-बार बुढ़ापा, रोग और राग-द्वेष आदि दुःखोंके अनुभव किया है। इस प्रकार बार-बार क्लेश उठानेसे एक दिन मेरे मनमें बड़ा संताप हुआ और मैंने दुःखोंसे घबराकर परमात्माकी शरण ली तथा समस्त लोक-श्रवणकारका परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभवके पश्चात् मैंने इस मार्गका आश्रय लिया है और अब परमात्माकी कृपासे मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसारमें नहीं आऊँगा। जबतक यह सृष्टि कायम रहेगी और जबतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी, तबतक मैं अपनी और दूसरे प्राणियोंकी शुभ गतिका अवलोकन करूँगा। द्विजश्रेष्ठ! इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम-से-उत्तम सत्यलोकमें जाऊँगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद (मोक्ष) को प्राप्त कर लूँगा। इसमें तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिये। अब मुझे मर्त्यलोकमें नहीं आना पड़ेगा। महामते! मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ? तुम जिस इच्छासे मेरे पास आये हो उसके पूर्ण होनेका यह समय आ गया है। तुम्हारे आनेका उद्देश्य क्या है? इसे मैं जानता हूँ और शीघ्र ही यहाँ से जानेवाला हूँ। इसीलिये स्वयं तुम्हें प्रश्न करनेके लिये प्रेरित कर रहा हूँ। विद्वन्! तुम्हारे उत्तम आचरणसे मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याणकी बात पूछो, मैं तुम्हारे अनीष्ट प्रश्नका उत्तर दूँगा। काश्यप! मैं तुम्हारी बुद्धिको सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है; इसीसे कह रहा हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान् हो।

जीवकी मृत्यु और उसकी त्रिविध गतिका वर्णन

काश्यपने पूछा—महात्मन्! यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है? फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? संसारी जीव किस तरह इस दुःखमय संसारसे मुक्त होता है? वह मूल अविद्या और उससे उत्पन्न होनेवाले शरीरका कैसे त्याग करता है? और एक शरीरसे छूटकर दूसरेमें वह किस प्रकार प्रवेश करता है? मनुष्य अपने किये हुए शुभाशुभ

कर्मोंका फल कैसे भोगता है? और शरीर न रहनेपर उसके कर्म कहाँ रहते हैं?

ब्राह्मण कहते हैं—कृष्ण! काश्यपके इस प्रकार पूछनेपर सिद्ध महर्षिपति उनके प्रश्नोंका क्रमशः उत्तर देना आरम्भ किया।

सिद्धने कहा—काश्यप! मनुष्य इस लोकमें आयु

और कीर्तिको बढ़ानेवाले जिन कर्मोंका सेवन करता है, वे शरीर-प्राप्तिके कारण होते हैं। शरीर-ग्रहणके अनन्तर जब वे सभी कर्म अपना फल लेकर क्षीण हो जाते हैं, उस समय जीवकी आयुका भी सप्त हो जाता है। उस अवस्थामें वह विपरीत कर्मोंका सेवन करने लगता है और विनाशकाल निकट आनेपर उसकी बुद्धि उलटी हो जाती है। वह अपने सत्त्व (धर्म), बल और अनुकूल समयको जानकर भी मन-पर अधिकार न होनेके कारण असमयमें तथा अपनी प्रकृतिके विरुद्ध भोजन करता है। अल्पतः हानि पहुँचानेवाला जितनी वस्तुएँ हैं, उन सबका सेवन करता है। कभी बहुत अधिक खा लेता है और कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता। कभी दूषित अन्न-पानको भी ग्रहण कर लेता है। कभी एक दूसरेसे विरुद्ध गुणवाले पदार्थोंको एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रामें चट कर जाता है। कभी-कभी एक बारका खायी हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दुबारा भोजन कर लेता है। अधिक मात्रामें व्यायाम और स्वी-सन्भोग करता है। काम करनेके लोभसे सदा मल और मूत्रके वेगकी रोके रहता है। रसीला अन्न भोजन करता और दिनमें सोता है तथा कभी-कभी खाये हुए अन्नके पचनेके पहले असमयमें भोजन करके स्वयं ही अपने शरीरमें स्तित् वात-पित्तादि दोषोंको कुपित कर देता है। उन दोषोंके कुपित होनेपर वह अपने लिये प्राणनाशक रोगोंको बुला लेता है और इन्हीं सब कारणोंसे उसका शरीर मरुट हो जाता है। इस प्रकार संसारके सभी जीव वेदनाओंसे प्रसूत और जन्म-मरणके चक्रसे सदा उद्विग्न रहते हैं।

देहधारी जीव जिन इन्द्रियोंके द्वारा रूप, रस आदि विषयोंका अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजनसे परिपुष्ट होनेवाले प्राणियोंकी नहीं जान सकता। इस शरीरके भीतर रहकर जो सब कार्य करता है, वह सनातन जीव है। अन्तकाल उपस्थित होनेपर तम (अविद्या) के द्वारा जीवकी शानशक्ति सुप्त हो जाती है। उसके मर्मस्थान अवशुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीवके लिये कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थानसे विचलित कर देती है। तब वह जीवात्मा बारंबार लंबी साँस छोड़कर बाहर निकलते समय सहसा इस जड़ शरीरको कम्पित कर देता है। शरीरसे

अलग होनेपर वह अपने लिये हुए पुण्य अथवा पाप-कर्मोंसे घिरा रहता है। जिन्होंने वेद-शास्त्रके सिद्धान्तोंका ध्यायान् अध्ययन किया है, वे शानसम्पन्न ब्राह्मण सहायोंके द्वारा ग्रहण जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी। जिस तरह आँसुवाले मनुष्य अँधेरेमें इधर-उधर उगते-चुमते हुए लक्ष्मणको देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध पुण्य अपनी शानसयों दिव्य दृष्टिके जन्मते-मरते तथा गर्भमें प्रवेश करते हुए जीवको सदा देखते रहते हैं। शास्त्रके अनुसार जीवके तीन स्थान देखे गये हैं (मर्त्यलोक, स्वर्गलोक और नरक)। यह मर्त्यलोककी भूमि, जहाँ बहुत-से प्राणी रहते हैं, कर्मभूमि कहलाती है। यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करनेके सब मनुष्य उसका यथायोग्य फल प्राप्त करते हैं। यहाँ पुण्य कर्म करनेवाले जीव (स्वर्गमें जाकर) अपने कर्मानुसार उत्तम भोग प्राप्त करते हैं और यहाँ पाप-कर्म करनेवाले मनुष्य कर्मानुसार नरकमें पड़ते हैं। यह जीवकी अयोध्या है, जो घोर कष्ट देनेवाली है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकनिर्गममें पराये जाते हैं। उसकी यातनासे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। इसलिये पाप-कर्मसे अलग रहकर अपनेको नरकसे बचानेका विशेष ध्यान रखना चाहिये।

अब स्वर्ग आदि उच्च लोकोंमें गये हुए प्राणी जिन स्थानोंमें निवास करते हैं, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। इसको सुननेसे तुम्हें कर्मोंकी गति का निरचय हो जायगा और नैष्ठिकी बुद्धि प्राप्त होगी। जहाँ वे समस्त ताराएँ हैं, जहाँ चन्द्रग्रहण प्रकाशित होता है तथा जिस लोकमें सूर्यमण्डल अपनी किरणोंसे देदीप्यमान दिखायी देता है, उन सबको शुभ पुण्य कर्म करनेवाले मनुष्योंके स्थान समझो। [पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकोंमें जाकर अपने पुण्यात्मा फल भोगते हैं।] जब जीवोंके पुण्य-कर्मोंका भोग समाप्त हो जाता है तब वे वह्नि नीचे गिरते हैं। यह आवागमनकी परम्परा बराबर लगी रहती है। ऊपरके लोकोंमें भी ऊँच, नीच और मध्यमका भेद रहता है, इसलिये वहाँ निवास करनेवालोंको भी दूस्वीयता तेज और ऐश्वर्य अपनेसे अधिक देखकर मनमें संतोष नहीं होता। इस प्रकार जीवकी इन सभी गतिपथोंका धीरे पुण्य-पुण्य वर्णन किया। अब यह बताऊँगा कि जीव किस प्रकार गर्भमें आकर जन्म धारण करता है। शुभ एकाग्रचित्त होकर इस विषयको सुनो।

जीवके गर्भ-प्रवेश, आचार-धर्म, कर्म-फलकी अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका वर्णन

सिद्धने कहा—काश्यप ! इस लोकमें किये हुए शुभ और अशुभ कर्मोंका फल भोगे बिना नाश नहीं होता । वे कर्म एकके बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं । जैसे फल देनेवाला वृक्ष फलनेका समय आनेपर व्रहत-से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदयसे किये हुए पुण्यका फल अधिक होता है तथा कलुषित चित्तसे किये हुए पापके फलमें भी वृद्धि होती है; क्योंकि जीवात्मा मनको आगे करके ही प्रत्येक कार्यमें प्रवृत्त होता है । काम-क्रोधसे घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म-जालमें आबद्ध होकर गर्भमें प्रवेश करता है, उसका वर्णन सुनो । जीव पहले पुरुषके वीर्यमें प्रविष्ट होता है । फिर स्त्रीके गर्भाशयमें जाकर उसके रजसे मिल जाता है । तत्परचात् उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीरकी प्राप्ति होती है । सूक्ष्म और अव्यक्त होनेके कारण वास्तवमें वह जीवात्मा शरीरको पाकर भी उसके दोषोंसे कभी लिप्त नहीं होता । वही सम्पूर्ण भूतोंका बीज है । उसीके द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं । ऐसा होनेपर भी वह अज्ञानवश जीवभावसे विभक्त होकर गर्भके प्रत्येक अवयवमें व्याप्त हो जाता है और इन्द्रियोंके स्थानों (गोलकों) में स्थित होकर चित्तके द्वारा सबको धारण करता है । जीवके प्रवेश करनेसे गर्भ चेतन हो जाता है और उसके द्वारा सब अङ्गोंमें चेष्टा होने लगती है । जैसे गलाये हुए लोहेका रस जिस तरहके साँचेमें ढाला जाता है उसी तरहका आकार धारण करता है, उसी प्रकार जीवका गर्भमें प्रवेश होता है अर्थात् जीव भी जिस तरहके शरीरमें प्रवेश करता है उसी आकारका दिखायी देता है । जैसे आग लोहेके गोलेमें प्रविष्ट होकर उसे खूब तपाकर अग्निमय बना देती है, उसी प्रकार तुम जीवका गर्भ-प्रवेश भी समझो अर्थात् जीवके प्रविष्ट होनेसे सारा शरीर चेतन एवं जीवमय जान पड़ता है । जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घरमें प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीवकी चैतन्य-शक्ति शरीरके सब अवयवोंको प्रकाशित करती है । देहधारी जीव जो-जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसको दूसरे जन्ममें भोगता है । पूर्वजन्मके शरीरसे किये हुए समस्त कर्मोंका फल उसे निश्चय ही भोगना पड़ता है । भोगनेसे प्राचीन कर्म तो क्षीण होते हैं और नये-नये कर्मोंका संचय बढ़ता जाता है । जीवको जबतक मोक्ष-धर्मका ज्ञान नहीं होता तबतक यह कर्मोंकी परम्परा चालू रहती है ।

इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियोंमें भ्रमण करनेवाला जीव

जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता है, उन कर्मोंका वर्णन सुनो । दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, इन्द्रिय-निग्रह, शान्ति, समस्त प्राणियोंपर दया, चित्तका संयम, कोमलता, दूसरोंके धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणियोंका मनसे भी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा, देवता, अतिथि और गुरुकी पूजा, दया, पवित्रता, इन्द्रियोंको सदा काबूमें रखना तथा शुभ कर्मोंका प्रचार करना—यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका बर्ताव कहलाता है । इनके अनुष्ठानसे धर्म होता है, जो सदा ही प्रजावर्गकी रक्षा करता है । सत्पुरुषोंमें सदा ही इस प्रकारका धार्मिक आचरण देखा जाता है । उन्हींमें धर्मकी अटल स्थिति होती है । सदाचारसे ही धर्मके स्वरूपका परिचय मिलता है । शान्तचित्त महात्मा पुरुष सदाचारमें ही स्थित रहते हैं । उन्हींमें पूर्वोक्त दान आदि कर्मोंकी स्थिति है । वे ही कर्म सनातन धर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं । जो उस सनातन धर्मका आश्रय लेता है, उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती । इसीलिये धर्ममार्गसे भ्रष्ट होनेवाले लोगोंका नियन्त्रण किया जाता है । योगी और मुक्त पुरुष केवल आचार-धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं । जो धर्मके अनुसार बर्ताव करता है, उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फलकी प्राप्ति होती है और वह धीरे-धीरे अधिक काल बीतनेपर संसार-समुद्रसे तर जाता है । इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोंका फल भोगता है । यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होनेपर भी जीवरूपमें विकृत होकर इस जगत्में जो जन्म धारण करता है, उसमें कर्म ही कारण है । आत्माके शरीर-धारण करनेकी प्रथा सबसे पहले किसने प्रचलित की है ? इस प्रकारका संदेह प्रायः लोगोंके मनमें उठा करता है, अतः अब उसीका उत्तर दे रहा हूँ । सम्पूर्ण जगत्के पितामह ब्रह्माजीने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण किया । उसके बाद स्थावर-जङ्गमरूप समस्त त्रिलोकीकी रचना की । उन्हींने प्रधान नामक तत्त्वकी उत्पत्ति की, जो देहधारी जीवोंकी प्रकृति कहलाती है, जिसने सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्खा है यह प्राकृत जगत् क्षर कहलाता है । इससे भिन्न जीवात्माको अक्षर कहते हैं पितामहने जीवके लिये नियत समयतक शरीर धारण किये रहने, भिन्न-भिन्न योनियोंमें भ्रमण करने और परलोकसे लौटकर फिर इस लोकमें जन्म ग्रहण करने आदिकी, भी व्यवस्था की है । जिसने पूर्वजन्ममें अपने आत्माका साक्षात्कार कर लिया हो

ऐसा कोई भेदावी पुरुष संसारकी अनित्यताके विषयमें जैसी बात कह सकता है वैसे ही मैं भी कहता हूँ। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी। जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको अनित्य, शरीरको अपवित्र वस्तुओंका समूह

और मृत्युको कर्मका फल समझता है तथा सुखके रूपमें प्रतीत होनेवाला यह सब कुछ दुःख-ही-दुःख है ऐसा मानता है, वह घोर एवं बुद्धर संसारसागरसे पार हो जाता है।

मोक्ष-प्राप्तिके उपायका वर्णन

सिद्ध ब्राह्मणने कहा—कारण। जो मनुष्य (स्मृत, सूक्ष्म और कारण-शरीरोंमेंसे भ्रमशः) पूर्व-पूर्वका अविमान त्यागकर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और मौनभावसे रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान—परब्रह्म परमात्मामें लीन रहता है, वही संसार-बन्धनसे मुक्त होता है। जो सबका मित्र, सब कुछ सहनेवाला, मनोनिग्रहमें तत्पर, जितेन्द्रिय, भय और श्लोथसे रहित तथा मनस्वी है; जो नियमपरायण और पवित्र रहकर सब प्राणियोंके प्रति अपने-जसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो अविमानसे दूर रहता है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जीवन्-मरण, सुख-दुःख, लाभ-हानि तथा प्रिय-अप्रियमें जिसकी समान दृष्टि है; जो किसीके द्रव्यका लोभ नहीं रखता, किसीकी अवहेलना नहीं करता; जिसके मनपर इन्द्रोंका प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके विस्तकी भासवित दूर हो गयी है; जो किसीकी अपना मित्र, बन्धु या संतान नहीं मानता; जिसने धर्म, अर्थ और कामका परित्याग कर दिया है, जो सब प्रकारकी आकाङ्क्षाओंसे रहित हो गया है; जिसकी न धर्ममें भासवित है, न अधर्ममें; जो पूर्वके संचित कर्मोंको त्याग चुका है; वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त अत्यन्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके इन्द्रोंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है। जो काम्य कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करता, जिसके मनमें कोई कामना नहीं है, जिसकी दृष्टिमें यह जगत् अवश्यके समान आज है कल नहीं रहनेवाला है, जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरा-अवस्थासे युक्त अस्थिर देखता है; जिसकी बुद्धि बरामध्यमें लगी रहती है; जो सदा अपने बोधोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बन्धनका नाश कर देता है। जो आत्माको गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह और रूपसे रहित तथा अज्ञेय मानता है; जिसकी दृष्टिमें आत्मा पाञ्चमीतिक गुणोंसे हीन, निराकार, कारणरहित, निर्गुण तथा गुणोंका भोक्ता है, वह मुक्त हो जाता है। जो बुद्धिसे विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संस्कृत्योंका त्याग कर देता है, वह बिना ईधनकी आगके समान धीरे-धीरे शान्ति को प्राप्त हो जाता है। जो सब प्रकारकी वासनाओंसे छूटकर इन्द्र

और परिग्रहसे रहित हो गया है तथा जो तपस्याके द्वारा इन्द्रियसमूहको अपने वशमें करके अनसप्तत भावसे विचरता है, उसे मुक्त ही समझना चाहिये; क्योंकि वासनाओंके बन्धनसे छूट जानेपर मनुष्य शान्त, अबल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है।

अब मैं उस परम उत्कृष्ट योगशास्त्रका वर्णन करता हूँ, जिसके अनुसार योग-साधन करनेवाले मोगी पुरुष अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैं। पहले तुम उन उपायोंको ध्यान करो, जिनके द्वारा चित्तको बशीरूत एवं अन्तर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन करता है। इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटाकर मनमें और मनको आत्मामें स्थापित करे। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपायका अवलम्बन करना चाहिये। मनीषी पुरुषको चाहिये कि वह सदा तपस्यामें प्रयुक्त एवं पलशरील होकर योगशास्त्रोक्त उपायका अनुष्ठान करे। इससे वह मनके द्वारा अपने अन्तःकरणमें आत्माका साक्षात्कार करता है। एकान्तमें रहनेवाला साधक पुरुष यदि अपने मनको आत्मामें लगाये रखनेमें सफल हो जाता है तो वह अवश्य ही अन्तःकरणमें आत्माका दर्शन करता है। जो साधक सदा संयमपरायण, योगयुक्त, मनको वशमें करनेवाला और जितेन्द्रिय है, वही आत्मामें प्रेरित होकर बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है। जैसे मनुष्य सपनेमें किसी अर्थावचित पुरुषको देखकर जब पुनः उसे आधुन-अवस्थामें देखता है तो वुरंत पहचान लेता है कि 'यह वही है।' उसी प्रकार साधनपरायण योगी समाधि-अवस्थामें आत्माको जिस रूपमें देखता है, उसी रूपमें उसके बाह भी देखता रहता है। जैसे कोई मनुष्य मूर्तमें सँकोके अलग करके दिखा दे, वैसे ही मोगी पुरुष आत्माको इस देहेसे पृथक् करके देखता है। यहाँ शरीरको मूँज बना गया है और आत्माको सँके। मोग्येताओंने देह और आत्माके पारंपर्यको समझनेके लिये यह बहुत उत्तम वृत्तान्त दिया है। देह-धारी जीव जब योगके द्वारा आत्माका पारंपर्यसे दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवनके अधीश्वरका भी

आधिपत्य नहीं रहता। वह अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके शरीर धारण कर सकता है। बुढ़ापा और मृत्यु उसके पास नहीं फटकने पाते, शोक और हर्ष उसे नहीं छू सकते। अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला योगी पुरुष देवताओंका भी देवता हो सकता है। वह इस अनित्य शरीरका त्याग करके अविनाशी ब्रह्मको प्राप्त होता है। सम्पूर्ण प्राणियोंका विनाश देखकर भी उसे भय नहीं होता। सबके क्लेश उठानेपर भी उसको किसीसे क्लेश नहीं पहुँचता। शान्तचित्त एवं निःस्पृह योगी आसक्ति और स्नेहसे प्राप्त होनेवाले भयंकर दुःख, शोक तथा भयसे कभी विचलित नहीं होता। उसे शस्त्र नहीं काट सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुँच पाती, संसारमें उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई भी नहीं दिखायी देता। वह मनको आत्मामें लीन करके आत्मनिष्ठ हो जाता है तथा बुढ़ापाके दुःखोंसे छुटकारा पाकर सुखसे सोता—अक्षय आनन्दका अनुभव करता है। अच्छी तरह योगका अभ्यास करके जब योगी अपनेमें ही आत्माका साक्षात्कार करने लगता है, उस समय वह साक्षात् इन्द्रके पदको भी पानेकी इच्छा नहीं करता।

एकान्तमें ध्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार योगकी प्राप्ति होती है, वह सुनो—जो उपदेश पहले श्रुतिमें देखा गया है, उसका चिन्तन करके शरीरके जिस भागमें जीवका निवास माना गया है, उसीमें मनको भी स्थापित करे। उसके बाहर कदापि न जाने दे। फिर निर्जन वनमें, जहाँ किसी प्रकारका शब्द न सुनायी देता हो, इन्द्रियसमुदायको वशमें करके एकाग्रचित्तसे अपने अन्तःकरणमें परमात्मतत्त्वका चिन्तन करे। प्रमादको सर्वथा त्याग दे। इस प्रकार सदा ध्यानके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता और परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है। परमात्मा इन चर्म-चक्षुओंसे नहीं देखा जा सकता। सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भी उसको अपना विषय नहीं बना सकतीं। केवल मनरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान् आत्माका दर्शन होता है। वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुखवाला तथा सब ओर कानवाला है; क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है। जो इस प्रकार परमात्माका दर्शन करता है, वह उसीका आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। विप्रवर! यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला

दिया। अब मैं जानेकी अनुमति चाहता हूँ। तुम भी आनन्दपूर्वक अपने स्थानको लौट जाओ।

श्रीकृष्ण! (मैं ही वह सिद्ध ब्राह्मण हूँ।) मैंने उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले महातपस्वी शिष्य काश्यपको जब इस प्रकार उपदेश दिया तो वह इच्छानुसार अपने अभीष्ट स्थानको चला गया।

श्रीकृष्ण कहते हैं—अर्जुन! मोक्ष-धर्मका आश्रय लेनेवाले वे ब्राह्मणश्रेष्ठ सिद्ध मुनि मुझसे यह प्रसंग सुनाकर वहाँ अन्तर्धान हो गये। पार्थ! क्या तुमने मेरे बताये हुए इस उपदेशको एकाग्रचित्तसे सुना है? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र है तथा जिसे ज्ञानका उपदेश नहीं प्राप्त है, वह मनुष्य इस विषयको नहीं समझ सकता। जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, वही इसे जान सकता है। यह मैंने देवताओंका परम गोपनीय रहस्य बतलाया है। इस जगत्में कभी किसी भी मनुष्यने इस रहस्यका श्रवण नहीं किया है। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसको सुननेका अधिकारी भी नहीं है। जिसका चित्त दुविधेमें पड़ा हुआ है, वह इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। सनातन ब्रह्म ही जीवकी परम गति है। ज्ञानी मनुष्य देहको त्यागकर उस ब्रह्ममें ही अमृतत्वको प्राप्त होता और सदाके लिये सुखी हो जाता है। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि—चाण्डाल आदि भी इस धर्मका आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं; फिर जो अपने धर्ममें प्रेम रखते और सदा ब्रह्म-लोककी प्राप्तिके साधनमें लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी तो बात ही क्या है? इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष-धर्मका युक्तियुक्त उपदेश किया है, उसके साधनके उपाय बतलाये हैं और सिद्धि, फल, मोक्ष तथा दुःखके स्वरूपका भी निर्णय किया है। इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पाण्डुनन्दन! जो कोई बुद्धिमान्, श्रद्धालु और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुखको सारहीन समझकर उसका परित्याग कर देता है, वह इसी उपायके द्वारा बहुत शीघ्र परम गतिको प्राप्त हो जाता है। इतना ही मुझे कहना था। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो छः महीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास करता है, उसे अवश्य उसमें सिद्धि प्राप्त होती है।

ब्राह्मणका अपनी स्त्रीसे इन्द्रिय-यज्ञ तथा मन-इन्द्रिय-संवादका वर्णन

श्रीकृष्णने कहा—अर्जुन ! इसी विषयमें पति-पत्नीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। एक ब्राह्मण, जो ज्ञान-विज्ञानके पारंगामी विद्वान् थे, एकान्त स्थानमें बैठे हुए थे, यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी उनके



पास जाकर बोली—'प्राणनाथ ! मैंने सुना है कि स्त्रियों पतिके कर्मनुसार प्राप्त हुए लोकमें जाती हैं; किंतु आप तो कर्म करना छोड़कर चुपचाप बैठे रहते हैं; और मेरे प्रति कठोरताका बतव्य करते हैं; फिर आप-जैसे पतिको पाकर मैं किस गतिको प्राप्त होऊँगी ?'

स्त्रीके ऐसा कहनेपर शान्तचित्तवाले ब्राह्मण देवता मुसकराते हुए बोले—'मुन्दरी ! तुमने जो बात कही है उसके लिये मैं बुरा नहीं मानता। संसारमें जो पृहण करने योग्य दोषा और व्रत आदि हैं तथा इन आँलसे विषयों देनेवाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हींको कर्म माना जाता है। कर्मवन्तोंग ऐसे ही कर्मको कर्मके नामसे पुकारते हैं; किंतु जिन्हें ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई है, वे लोग कर्मके द्वारा मोहका ही नियन्त्रण करते हैं। यहाँ-एक प्राचीन दृष्टान्त विद्या जाता है। दस होता मिलकर जिस प्रकार धनका अनुष्ठान करते हैं, वह सुनो—कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा (बाक् और रसना),

नासिका, हाथ, पैर, उपरम्य और गुदा—ये दस होता हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वाणी, स्मिया, गति, मूलस्थान और मत-रथाग—ये दस हृदिय हैं। दिशा, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इन्द्र, प्रजापति और मित्र—ये दस देवता अग्नि हैं। सारांश यह कि दस इन्द्रियरूपी होता दस देवता-रूपी अग्निमें दस विषयरूपी हृदिय एवं समिधाओंका हवन करते हैं। (इस प्रकार मेरे अन्तरमें निरन्तर यज्ञ हो रहा है, फिर मैं अकर्मण्य कैसे हूँ ?) अब सात होताओंके यत्नाका संज्ञा विद्यान है, उसको सुनो—नासिका, नेत्र, जिह्वा, त्वचा, कान, मन और बुद्धि—ये सात होता अलग-अलग रहते हैं। यद्यपि ये सभी सूक्ष्म शरीरमें ही निवास करते हैं, तो भी एक-दूसरेको नहीं देखते—नहीं पहचानते। कल्पानो ! इन सातों होताओंको तुम स्वभावसे ही पहचानो।

ब्राह्मणीने पूछा—मगवन् ! जब सभी सूक्ष्म शरीरमें ही रहते हैं तो एक दूसरेको देख क्यों नहीं पाते ? और उनके स्वभाव कैसे हैं ? यह बतानेकी कृपा करो।

ब्राह्मणने कहा—प्रिये ! यहाँ बेलनेका अर्थ है जानना ! गुणोंको जानना ही गुणवान्को जानना है और गुणोंको न जानना ही गुणवान्को न जानना कर्त्तव्यता है। ये नासिका आदि सात होता एक दूसरेके गुणको कभी नहीं जान पाते (इसीलिये कहा गया है कि ये एक दूसरेको नहीं देखते)। जीभ, आँल, कान, त्वचा, मन और बुद्धि—ये गन्धको नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुभव करती है। नासिका, कान, नेत्र, त्वचा, मन और बुद्धि—ये रसका आस्वादन नहीं कर सकते, केवल जिह्वा ही उसका स्वाद संभवती है। नासिका, जीभ, कान, त्वचा, मन और बुद्धि—ये रूपका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते; किंतु नेत्र द्वारा अनुभव करते हैं। नासिका, जीभ, आँल, कान, बुद्धि और मन—ये स्पर्शका अनुभव नहीं कर सकते; किंतु त्वचाको उसका ज्ञान होता है। नासिका, जीभ, आँल, त्वचा, मन और बुद्धि—इन्हें शब्दका ज्ञान नहीं होता, किंतु कानको होता है। नासिका, जीभ, आँल, त्वचा, कान और बुद्धि—ये संगम्य (संकल्प-विकल्प) नहीं कर सकते। यह काम मनका है। इसी प्रकार नासिका, जीभ, आँल, त्वचा, कान और मन—ये किसी बातका निरूपण नहीं कर सकते। निरवयवात्मक ज्ञान तो केवल बुद्धिको होता है। इस विषयमें इन्द्रियों और मनके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। एक बार मनने इन्द्रियोंसे कहा—

‘मेरी सहायताके बिना नासिका सूँघ नहीं सकती, जीभ रसका स्वाद नहीं ले सकती, आँख रूप नहीं देख सकती, त्वचा स्पर्शका अनुभव नहीं कर सकती और कानोंको शब्द नहीं सुनायी दे सकता। मैं सब भूतोंमें श्रेष्ठ और सनातन हूँ। मेरे बिना समस्त इन्द्रियाँ मूने घरकी भाँति थोहीन जान पड़ती हैं। संसारके सभी जीव इन्द्रियोंके यत्न करते रहनेपर भी मेरे बिना विषयोंका अनुभव नहीं कर सकते।’

यह सुनकर इन्द्रियोंने कहा—‘महोदय ! यदि आप भी हमारी सहायता लिये बिना ही विषयोंका अनुभव कर सकते तो हम आपको इस बातको सच मान लेंतों। हमारा लय हो जानेपर भी आप तृप्त रह सकें, जीवन धारण कर सकें और सब प्रकारके भोग भोग सकें तो आप जैसा कहते और मानते हैं, वह सब सत्य हो सकता है। अथवा हम सब इन्द्रियाँ लीन हो जायें या विषयोंमें स्थित रहें, यदि आप अपने संकल्पमात्रसे विषयोंका यथायं अनुभव करनेकी शक्ति रखते हैं और आपको ऐसा करनेमें सदा ही सफलता प्राप्त होती है तो जरा नाकके द्वारा रूपका तो अनुभव कीजिये,

आँखमें रसका तो स्वाद लीजिये और कानके द्वारा गन्धको तो ग्रहण कीजिये। इसी प्रकार अपनी शक्तिमें जिह्वेके द्वारा स्पर्शका, त्वचाके द्वारा शब्दका और बुद्धिके द्वारा स्पर्शका तो अनुभव कीजिये। आप-जैसे बलवान् लोग नियमोंके बन्धनमें नहीं रहते, नियम तो दुर्बलोंके लिये होते हैं। आप नये ढंगसे नवीन भोगोंका अनुभव कीजिये (सकोरके फकीर क्यों बनते हैं ?)। हमलोगोंकी जूटन खाना आपको गोमा नहीं देता। जैसे शिष्य श्रुतिके अर्थको जाननेके लिये उपदेश करनेवाले गुरुके पास जाता है और उनसे श्रुतिके अर्थका ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार करता है, वैसे ही आप सोते और जागते समय हमारे ही विषये हुए मूत और भविष्य विषयोंका उपभोग करते हैं। भले ही हमलोगोंकी अपने-अपने गुणोंके प्रति आसक्ति हो और भजे ही इम परस्पर एक दूसरेके गुणोंको न जान सकें; किन्तु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायताके बिना किसी भी विषयका अनुभव नहीं कर सकते। आपके बिना तो हमें केवल हृषंसे ही बञ्चित होना पड़ता है।’

प्राण-अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका सबकी श्रेष्ठता बतलाना

ब्राह्मणने कहा—प्रिये ! अब पञ्च होताओंके यज्ञका जैसा विधान है उसके विषयमें एक प्राचीन दृष्टान्त बतलाया जाता है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान—ये पाँचों प्राण पाँच होता हैं। त्रिद्वान् पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ मानते हैं।

ब्राह्मणी बोली—पहले तो मैं ऐसा समझती थी कि सात होता हैं; किन्तु अब आपके मुँहसे पाँच होताओंकी बात मालूम हुई। अतः ये पाँचों होता किस प्रकार हैं ? आप इनकी श्रेष्ठताका वर्णन कीजिये।

ब्राह्मणने कहा—प्रिये ! वायु प्राणके द्वारा पुष्ट होकर अपानरूप, अपानके द्वारा पुष्ट होकर व्यानरूप, व्यानसे पुष्ट होकर उदानरूप और उदानसे परिपुष्ट होकर समानरूप होता है। एक बार इन पाँचों वायुओंने पितामह ब्रह्माजीसे प्रश्न किया—‘भगवन् ! हममें जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता दीजिये, वही हमलोगोंमें प्रधान होगा।’

ब्रह्माजीने कहा—वायुगण ! प्राणधारियोंके शरीरमें स्थित हुए तुमलोगोंमेंसे जिसका लय हो जानेपर सभी प्राण लीन हो जायें और जिसके संचरित होनेपर सब-के-सब संचार करने लगें, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ।’ यह सुनकर प्राणवायुने अपान आदिसे कहा—

‘मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब संचार करने लगते हैं। इसलिये मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा भी लय हो जायगा)।’

यह कहकर प्राणवायु थोड़ी देरके लिये लीन हो गया और फिर उसके बाद चलने लगा। तब समान और उदान वायुने उससे कहा—‘प्राण ! तुम हमारी तरह इस शरीरमें व्याप्त होकर नहीं रहते, इसलिये तुम हमलोगोंमें श्रेष्ठ नहीं हो। केवल अपान तुम्हारे वशमें है (अतः तुम्हारे लय होनेसे हमारी कोई हानि नहीं हो सकती)।’ उन दोनोंके बचन सुनकर प्राण कोई उत्तर न दे सका, वह फिर पहले-हीकी भाँति चलने लगा। तब अपानने कहा—‘मेरे लीन हो जानेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राणोंका लय हो जाता है तथा मेरे चलनेपर पुनः सब-के-सब चलने लगते हैं, इसलिये मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ।’

तब व्यान और उदानने उत्तर दिया—‘अपान ! केवल प्राण तुम्हारे अधीन है, इसलिये तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते।’ यह सुनकर अपान भी चुपचाप अपना काम करने लगा। तब व्यानने कहा—‘मैं सबमें श्रेष्ठ हूँ। मेरी श्रेष्ठताका कारण सुनिये। मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके देहमें स्थित

समस्त प्राणोंका सय हो जाता और मेरे चलनेपर फिर सबके-सब चलने लगते हैं, अतएव मैं सर्वमें श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लुप्त हो रहा हूँ। तदनन्तर, ध्यान छोड़ी देरतक सीन होकर फिर चलने लगा। तब प्राण, अपान, उदान और समागने कहा—'ध्यान ! केवल समान वायु तुम्हारे अधिका-रमें है, इसलिये तुम हम सबमें श्रेष्ठ नहीं हो सकते।' यह सुनकर ध्यान पुनः पहलेकी भाँति चलने लगा। तब समान बोला—'मैं सबमें श्रेष्ठ हूँ, इसके लिये पृथिव्यवत् कारण भी है, उसको सुनो। मेरे सय होनेपर प्राणधारियोंके शरीरमें स्थित सब प्राणोंका सय हो जाता है और मेरे चलने पर फिर सबके-सब चलने लगते हैं, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं सीन होता हूँ।' यह कहकर समानवायु छोड़ी देरतक सीन होनेके पश्चात् फिर चलने लगा। अब उदान बोला—'मैं सबमें श्रेष्ठ हूँ। मेरी श्रेष्ठताका

जो कारण है, उसे सुनो—मेरे सीन होनेपर प्राणधारियोंके शरीरमें स्थित समस्त प्राणोंका सय हो जाता है और मेरे चलनेपर पुनः सब चलने लगते हैं, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। देखो, मैं सीन हो रहा हूँ।' तदनन्तर, उदान छोड़ी देरतक सीन रहकर फिर चलने लगा। तब प्राण भाँतिने उससे कहा—'उदान ! केवल ध्यान ही तुम्हारे काममें है, इसलिये तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते।' तत्परचात् एखित हुए उन सब प्राणोंसे प्रजापति ब्रह्माजीने कहा—'बामुण्य ! तुम सभी लोग श्रेष्ठ हो अथवा तुममेंसे कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तुम सबका धारणस्थ धर्म एक दूसरेपर अवलम्बित है। अतः तुम सभी अपने-अपने स्थानपर श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो। कुशलपूर्वक जाओ और एक दूसरेके हितैषी रहकर परस्परकी उन्नतिमें साहायता पहुँचाते हुए एक दूसरेको धारण किये रहो।'

अन्तर्यामीकी प्रधानता और ब्रह्मरूपी यनका वर्णन

ब्रह्मणने कहा—'प्रिये ! जगत्का शासक एक ही है, दूसरा नहीं। जो हृदयके भीतर बिराजमान है, उस परमात्माको ही मैं सबका शासक बतला रहा हूँ। जैसे पानी डालू स्थानसे नीचेकी ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही उस परमात्माकी प्रेरणासे मैं जिस तरहके काममें नियुक्त होता हूँ, उसीका पालन करता रहता हूँ। एक ही गृह है दूसरा नहीं। जो हृदयमें स्थित है, उस परमात्माको ही मैं गृह बतला रहा हूँ। उसी गृहके अनुशासनसे जगत्के सारे सृष्टि सदा द्वेषके पात्र माने गये हैं। एक ही बन्धु है, उसमें भिन्न दूसरा कोई बन्धु नहीं है। जो हृदयमें स्थित है, उस परमात्माको ही मैं बन्धु कहता हूँ। उसीके उपदेशसे बान्धवगण बन्धुमान् होने हैं और सत्पति लोग आश्रित्य भ्रष्टाश्रित होते हैं; एक ही श्रोता है दूसरा नहीं। जो हृदयमें स्थित परमात्मा है, उसीको मैं श्रोता कहता हूँ। इन्द्रने उसीको गृह मानकर गुरुकुलवासना नियम पूरा किया अर्थात् शिष्यभावसे वे उस अन्तर्यामीकी ही शरणमें गये। इससे उन्हें सम्पूर्ण लोकोंका साम्राज्य और अमरत्व प्राप्त हुआ।

पूर्वकालमें सर्पों, देवताओं और ऋषियोंकी प्रजापतिके साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन प्रसंगको सुना रहा हूँ। एक बार देवता, ऋषि, नाग और असुरोंने प्रजापतिने पास बैठकर पूछा—'भगवन् ! हमारे कल्याणका क्या उपाय है?' यह बताइये। उनका प्रश्न सुनकर प्रजापति ब्रह्माजीने एकक्षर शब्द—'अकारका उच्चारण किया। उनका प्रणव-

नाद सुनकर सब लोग अपनी-अपनी दिशा (अपने-अपने स्थान) को चल दिये। फिर उन्होंने उस उपदेशके अर्थपर जब विचार किया तो सबसे पहले सर्पोंने मनमें दूसरोंको ईर्ष्याका भाव पैदा हुआ असुरोंने स्वामासिक इन्द्रका, आधिर्भाव हुआ तथा देवताओंने दानको और ऋषियोंने दमकी ही अपनातेका निश्चय किया। इस प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और दानव—ये सब एक ही उपदेशका गुरुके पास गये थे और एक ही शब्दके उपदेशसे उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ तो ही उनके मनमें भिन्न-भिन्न प्रकारके भाव उत्पन्न हो गये। श्रोता गुरुके कहे हुए उपदेशको सुनता है और उसको अपने-अपने (भिन्न-भिन्न स्थानों) ग्रहण करता है। अतः प्रश्न पूछनेवाले शिष्यके लिये अपने अन्तर्यामीसे बहुत दूसरा कोई गुरु नहीं है। पहले यह कर्मका अनुमोदन करता है, उसके बाद जीवको उस कर्ममें प्रवृत्त होता है। इस प्रकार हृदयमें प्रष्ट होनेवाला परमात्मा ही गुरु, शान्ति धोता और श्रेष्ठ है।

संगमरमें जो पाप करते हुए विचरता है, वह पापाचारी और जो शुभ कर्मोंका आचरण करता है, वह गुणाचारी कहलाता है। इसी तरह कामनाओंके द्वारा इन्द्रियगुणमें पराजय मनुष्य कामचारों और इन्द्रियमन्त्रमें प्रवृत्त रहने-वाना पुत्र्य ब्रह्मचारी कहलाता है। जो धर्म और कर्मोंका त्याग करके बल्लुमें स्थित है और ब्रह्मचर्य हीनर संसारमें विचरता रहता है, वही भ्रष्ट ब्रह्मचारी है। ब्रह्म ही उनकी सतिष्ठा है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही शक्ति है, ब्रह्म ही उल्लस हुआ है,

यस ही उसका जल और ब्रह्म ही गुरु है। उसकी चित्त-वृत्तियाँ सदा ब्रह्ममें ही लीन रहती हैं। विद्वानोंने इसीको सूक्ष्म ब्रह्मचर्य बतलाया है। आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्यके स्वरूपको जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं।

जहाँ संकल्परूपी डाँस और मच्छरोंकी अधिकता होती है, शोक और हर्षरूपी सर्दों-गर्मोंका कण्ठ बना रहता है, मोह-रूपी अन्धकार फैला हुआ है, लोभ तथा व्याधिरूपी सर्प विचरा करते हैं, जहाँ विषयोंका ही मार्ग है, जिसे अकेले ही तय करना पड़ता है तथा जहाँ काम और क्रोधरूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं, उस संसाररूपी दुर्गम पथका उल्लङ्घन करके अब मैं ब्रह्मरूपी महान् वनमें प्रवेश कर चुका हूँ।

ब्राह्मणीने पूछा—महाप्राज्ञ ! वह वन कहाँ है ? उसमें कौन-कौन-से वृक्ष, पर्वत और नदियाँ हैं तथा वह फितली बुरीपर है ?

ब्राह्मणीने कहा—प्रिये ! उस वनमें न भेद है न अभेद—वह इन दोनोंसे अतीत है। वहाँ लौकिक सुख और दुःख—दोनोंका अभाव है। उससे अधिक छोटी, उससे अधिक बड़ी और उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके समान सुखरूप भी कोई नहीं है। उस वनमें विषिष्ट हो जानेपर द्विजातियोंको न हर्ष होता है, न शोक। न तो वे स्वयं किन्हीं प्राणियोंसे डरते हैं और न उन्हींसे दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं। वहाँ (महत्तत्त्व, अहंकार और पाँच तन्मात्रारूप) बड़े-बड़े वृक्ष हैं, (रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, संशय और निश्चय—ये) सात उन वृक्षोंके फल हैं तथा (महत्-अहंकार आदि पूर्वोक्त तत्त्वोंके अधिष्ठाता देवतारूप) सात ही उन फलोंके भोक्ता अतिथि हैं। (मन, बुद्धि और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ—ये) उन अतिथियोंके सात आश्रम हैं, वहाँ सात प्रकारकी समाधियाँ हैं और सात प्रकारकी ही वीक्षाएँ हैं। यही उस वनका स्वरूप है। वहाँ मनरूपी वृक्ष शब्दादि विषयोंके अनुभवरूप पाँच प्रकारके दिव्य पुष्पों और उनसे उत्पन्न प्रीति आदिरूप पाँच प्रकारके फलोंकी सृष्टि करते हुए सब ओर व्याप्त हो रहे हैं। चक्रुरूप वृक्ष उस वनमें श्वेत-पीतादि वर्णरूप पुष्प और उन्हें देखनेसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखरूपी फल उत्पन्न करते हुए सब ओर फैले रहे हैं। यज्ञादिरूपी वृक्ष पुण्य-पापरूपी पुष्प और स्वर्ग-नरक आदिरूप फल प्रदान करते हैं। ध्यानाविरूपी वृक्ष केवल सुखरूप फूल और फल देते हैं। मन और बुद्धिरूपी दो वृक्ष मन्तव्य और

बोद्धव्यरूप नाना प्रकारके फूलों और फलोंकी सृष्टि करते हुए सब ओर फैले हैं। उस वनमें आत्मा ही अग्नि है, जीव ब्राह्मण है, मन और बुद्धि स्रुक एवं सूवा हैं और पाँच इन्द्रियों समिधाएँ हैं। मन-बुद्धिसहित पाँचों इन्द्रियोंके आत्माग्निमें पृथक्-पृथक् हवन करनेपर जो मोक्ष प्राप्त होता है, वह अपादान-भेदसे सात प्रकारका है। इस यज्ञकी वीक्षाका फल अवश्य होता है; किंतु वह फल गौण माना गया है। इन्द्रिया-धिष्ठाता देवता ही उस फलकी आशा करते हैं (यज्ञकर्ता पुरुष नहीं, उसकी तो मुक्ति हो जाती है)। महाविगण (इन्द्रियोंके अधिदेवता) इस आत्मयज्ञमें आतिथ्य ग्रहण करते हैं और पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है। तत्पश्चात् वह ब्रह्मरूप विलक्षण वन प्रकाशित होता है। उसमें प्रज्ञारूपी वृक्ष शोभा पाते हैं, मोक्षरूपी फल लगते हैं और शान्तिमयी छाया फैली रहती है। ज्ञान वहाँका आश्रय-स्थान और तृप्ति जल है। उस वनके भीतर आत्मारूपी सूर्यका प्रकाश छाया रहता है। जो साधु पुरुष उस वनका आश्रय लेते हैं, उन्हें फिर कभी भय नहीं होता। वह वन ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर सब ओर व्याप्त है। उसका कहीं भी अन्त नहीं है। वहाँ प्राणादि वृत्तिरूप सात स्त्रियाँ निवास करती हैं, जो जीवन्मुक्त पुरुषको अपने वशमें न कर सकनेके कारण लज्जाके मारे अपना मुँह नीचेकी ओर किये रहती हैं। वे चिन्मयज्योतिसे प्रकाशित होती हैं और उस वनमें रहनेवाली प्रजाको सब प्रकारके उत्तम रस—उत्कृष्ट आत्मन्व प्रदान करती हैं। जैसे सत्य और असत्यमें महान् अन्तर होता है, उसी प्रकार बद्ध और मुक्तके आनन्दमें भी होता है। यश, प्रभा, भग (ऐश्वर्य), विजय, सिद्धि, (ओज) और तेज—ये सात ज्योतियाँ उपर्युक्त आत्मारूपी सूर्यका ही अनुसरण करती हैं। उस ब्रह्ममें ही गिरि, पर्वत, नदी और झरने आदि स्थित हैं। नदियोंका संगम भी उसीके अत्यन्त गूढ़ हृदया-काशमें होता है। वही साक्षात् पितामहका स्वरूप है। आत्मज्ञानसे तृप्त पुरुष उसीको प्राप्त होते हैं। जिनकी आशा क्षीण हो गयी है, जो उत्तम व्रतके पालनकी इच्छा रखते हैं, तपस्यासे जिनके सारे पाप दग्ध हो गये हैं, वे ही पुरुष अपनी बुद्धिको आत्मनिष्ठ करके परब्रह्मकी उपासना करते हैं। विद्या (ज्ञान) के ही प्रभावसे ब्रह्मरूपी वनका स्वरूप समझमें आता है—इस बातको जाननेवाले मनुष्य इस वनमें प्रवेश करनेके उद्देश्यसे शम (मनोनिग्रह) की ही प्रशंसा करते हैं, जिससे बुद्धि स्थिर होती है।

आत्माकी निर्लिप्तता, परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार और पितामहोंके समझानेसे परशुरामजीका तपस्याके लिये जाना

ब्राह्मणने कहा—वेव ! मैं स्वयं न तो गन्ध संपत्ता हूँ, न रसोंका स्वाद सेता हूँ, न रूप देखता हूँ, न स्पर्श करता हूँ, न नासा प्रकारके शब्दोंको सुनता हूँ और न किसी प्रकारका संकल्प ही करता हूँ। मेरे मनमें न तो कामनाओंके प्रति राग है और न द्रोणोंके प्रति द्वेष। जैसे कमलका पत्ता पानीकी बूँद पड़नेपर उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुझपर भी राग-द्वेषका प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे स्वभावका कभी भी लोप नहीं होता। जैसे आकाशमें सूर्यकी किरणें नहीं लिप्त होतीं, उसी प्रकार विद्वान् पुण्य कर्ममें प्रवृत्त रहे तो भी उसके मनपर इस वृथ-जगत्के भोगोंका कुछ असर नहीं होता।

भामिनि ! यहाँ कातंबीयं और समुद्रके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। पूर्वकालमें कातंबीयं अर्जुनके नामसे प्रसिद्ध एक राजा था, जिसकी एक हजार भुजाएँ थीं। उसने केवल धनुष-बाणकी सहायतासे समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको अपने अधिकारमें कर लिया था। सुना जाता है, एक दिन राजा कातंबीयं समुद्रके किनारे विचर रहा था। वहाँ उसने अपने बलके धर्मद्वयं आकर संकड़ों बाणोंकी वर्षासे समुद्रको आच्छादित कर दिया। तब समुद्रने

प्रकट होकर उत्तम भागें मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा—'वीरवर ! मुझपर बाणोंकी वर्षा न करो। जोते, तुम्हारी किस आत्माका पातन करे ? तुम्हारे छोड़े हुए इन महान् बाणोंसे मेरे अंदर रहनेवाले प्राणियोंकी हत्या हो रही है। उन्हें अक्षय-दात करो।'।

कातंबीयं अर्जुन बोला—समुद्र ! यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर भी नूढ़ हो, जो युद्धमें मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बता दो (किर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा)।

समुद्रने कहा—राजन् ! यदि तुमने महर्षि जमदग्निना नाम सुना हो तो उन्हींके आश्रमपर चले जाओ। उनके पुत्र परशुरामजी तुम्हारा अच्छो तरह सत्कार कर सकते हैं।

तदनन्तर, राजा कातंबीयं बड़े श्रेष्ठमें भरकर महर्षि जमदग्निने आश्रमपर परशुरामजीके पास जा पहुँचा और अपने माई-बन्धुओंके साथ उनके प्रतिपूत बर्ताव करने लगा। उसने अपने अपराधोंसे महात्मा परशुरामजीसे उद्दिग्ध कर दिया। फिर तो शत्रु-सेनाको भस्म करनेवाला अमित तेजस्वी परशुरामका तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्हीं अपना फारसा उठाया और हजार भुजाओंवाले उस राजाको अनेकों शालाओंसे युक्त घुषाकी भाँति काट डाला। उसे भरकर जमीनपर पड़ा देल उसके सभी बन्धु-बाण्य एकर हो गये तथा हाथोंमें तलवार और शक्तिवाँ सेकर परशुरामजीपर चारों ओरसे टूट पड़े। इधर परशुरामजी भी धनुष सेकर सुरत रमपर सवार हो गये और बाणोंकी वर्षा करते हुए राजाको सेनाका संहार करने लगे। उस समय बहुत-से क्षत्रिय परशुरामजीके मयसे पीड़ित हो सिंहके सताने हुए मृगोंकी भाँति पहाड़ोंकी गुफाओंमें घुस गये। उन्हीं उनके डरसे अपने क्षत्रियचित्त कर्मोंका भी त्याग कर दिया। बहुत विनोतक बाह्यणोंका दर्शन न कर सक्नेके कारण वे घोर-घोर अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गये। इस प्रकार इंसु, आभीर, पुष्प और शबरोंके सहवासमें रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्मत्यागके कारण शूद्रकी अवस्थामें पहुँच गये।

स्त्वरचान् क्षत्रियवीरोंके मारे जानेपर बाह्यणोंने उनही स्त्रियोंसे नियोगकी विधिसे अनुसार पुत्र उत्पन्न किये, किन्तु उन्हें भी बड़े होनेपर परशुरामजीने मीतके घाट उतार दिया। इस प्रकार एक-एक करके जब इंसुकीस बार क्षत्रियोंका संहार हो गया तो परशुरामजीकी यह आश्रायवासी मुनियों की श्रेण परशुराम। इस हत्याके कामसे निवृत्त हो।



बारंबार इन वेचारे क्षत्रियोंके प्राण लेनेमें तुम्हें कौन-सा लाभ दिखायी देता है?' इती प्रकार उनके पितामह ऋचीक



आदिने भी समझाते हुए कहा—'बेटा ! यह काम छोड़ दो, क्षत्रियोंको न मारो। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथसे राजाओंका वध होना उचित नहीं है। इस विषयमें हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं, उसे सुनकर तदनुकूल वर्तव करो। पहलेकी बात है, अलर्क नामसे प्रसिद्ध एक राजर्षि थे, जो बड़े ही तपस्वी, धर्मज्ञ, सत्यवादी, महात्मा और दृढ़प्रतिज्ञ थे। उन्होंने अपने धनुषकी सहायतासे समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। इसके पश्चात् उनका मन सूक्ष्म तत्त्वकी खोजमें लगा। अब वे बड़े-बड़े कर्मोंका आरम्भ त्यागकर एक वृक्षके नीचे जा बैठे और सूक्ष्म तत्त्वकी खोजके लिये इस प्रकार चिन्ता करने लगे।'

अलर्क कहने लगे—मुझे मनसे ही बल प्राप्त हुआ है, अतः वही सबसे प्रबल है। मनको जीत लेनेपर ही मुझे स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है। मैं इन्द्रियरूपी शत्रुओंसे घिरा हुआ हूँ, इसलिये बाहरके शत्रुओंपर हमला न करके इन भीतरी शत्रुओंको ही अपने बाणोंका निशाना बनाऊँगा। यह मन चञ्चलताके कारण सभी मनुष्योंसे तरह-तरहके

कर्म कराता रहता है, अतः अब मैं मनपर ही तीखे बाणोंका प्रहार करूँगा।

मन बोला—अलर्क ! तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह नहीं बाँध सकते। यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे ही मर्मस्थानोंको चीर डालेंगे और उस अवस्थामें तुम्हारी ही मृत्यु होगी; अतः और किसी बाणका विचार करो, जिससे तुम मुझे मार सकोगे।

यह सुनकर अलर्कने थोड़ी देरतक विचार किया, इसके बाद वे नासिकाको लक्ष्य करके बोले—'मेरी यह नासिका अनेकों प्रकारकी सुगन्धियोंका अनुभव करके भी फिर उन्हींकी इच्छा करती है, इसलिये इसीको तीखे बाणोंसे मार डालूँगा।'

नासिका बोली—अलर्क ! ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनसे तो तुम्हारे ही मर्म विदीर्ण होंगे और तुम्हीं मरोगे, अतः मुझे मारनेके लिये और तरहके बाणोंकी तजवीज करो।

अब अलर्क कुछ देर विचार करनेके पश्चात् जिह्वाको लक्ष्य करके कहने लगे—'यह जीम स्वादिष्ट रसोंका उपभोग करके फिर उन्हीं ही पाना चाहती है। इसलिये अब इसीके ऊपर अपने तीखे सायकोंका प्रहार करूँगा।'

जिह्वा बोली—अलर्क ! ये बाण मुझे नहीं छेद सकते, ये तो तुम्हारे ही मर्मस्थानोंको बाँधकर तुम्हें ही मौतके घाट उतारेंगे; अतः दूसरे प्रकारके बाणोंका प्रवन्ध सोचो, जिनकी सहायतासे तुम मुझे भी मार सकोगे।

यह सुनकर अलर्क कुछ देरतक सोचते-विचारते रहे, फिर त्वचापर कुपित होकर बोले—'यह त्वचा नाना प्रकारके स्पर्शोंका अनुभव करके फिर उन्हींकी अभिलाषा किया करती है, अतः नाना प्रकारके बाणोंसे मारकर इसे विदीर्ण कर डालूँगा।'

त्वचा बोली—अलर्क ! ये बाण मुझे अपना निशाना नहीं बना सकते। ये तो तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण करेंगे और मर्म विदीर्ण होनेपर तुम्हीं मौतके मुखमें पड़ोगे। मुझे मारनेके लिये तो दूसरी तरहके बाणोंकी व्यवस्था सोचो।

त्वचाकी बात सुनकर अलर्कने थोड़ी देरतक विचार किया; फिर नेत्रको सुनाते हुए कहा—'यह आँख भी अनेकों बार सुन्दर-सुन्दर रूपोंका दर्शन करके पुनः उन्हींको देखना चाहती है, अतः इसे भी अपने तीखे तीरोंका निशाना बनाऊँगा।'

आँख बोली—अलर्क ! ये बाण मुझे नहीं छेद सकते, तुम्हारे ही मर्मस्थानोंको बाँध डालेंगे और मर्म विदीर्ण हो जानेपर तुम्हें ही जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा; अतः दूसरे

प्रकारके सायकोंका प्रबन्ध सोचो, जिनकी सहायतासे तुम मुझे भी मार सकोगे।

तब अलकंने पुनः सोचकर कहा—'यह बुद्धि अपनी प्रज्ञा-शक्तितसे अनेकों प्रकारका निरन्ध्र करती है, अतः इसी-के ऊपर अपने तीक्ष्ण सायकोंका प्रहार करेगा।'

बुद्धिने कहा—अलकं! ये बाण मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकते। इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण होगा और तुम्हीं मरोगे। जिनकी सहायतासे मुझे मार सकोगे, वे बाण तो कोई और ही हैं। उनके विषयमें विचार करो।

तदनन्तर, अलकंने उसी पैदुके नीचे बँधकर घोर तपस्या की; किंतु उससे मन-बुद्धिसहित इन्द्रियोंको मारने योग्य किसी उत्तम बाणका पता न लगा। तब वे एकाग्रचित होकर विचार करने लगे। बहुत दिनांतक निरंतर सोचने-विचारने-के बाद उन्हें योगसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारों साधन नहीं प्रतीत हुआ। अब वे मनको एकाग्र करके स्थिर

आसनसे बँध गये और ध्यानयोगका साधन करने लगे। इस एक ही क्षणसे मारकर उन्होंने समस्त इन्द्रियोंको तत्परास्त कर दिया—वे ध्यानयोगके द्वारा आत्मामें प्रवेश करके परा सिद्धि (सोम) को प्राप्त हो गये। इस सफलतासे राजर्षि अलकंको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस गाथाका गान किया—'अहो! बड़े कष्टकी बात है कि अबतक मैं बाहरी कामोंमें ही लगा रहा और भोगोंकी लुप्ततासे आबद्ध होकर राज्यकी ही उपासना करता रहा। 'ध्यानयोगसे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम साधन प्राप्त नहीं है। यह बात तो मुझे बहुत पीछे मालूम हुई है।'

पितामहोंने कहा—बंटा परशुराम। इन सब बातोंके अच्छी तरह समझकर-तुम क्षत्रियोंका नाम न करो। घोर तपस्यामें लग जाओ, उसीसे तुम्हारा कल्याण होगा।

अपने पितामहोंके इस प्रकार बहनेपर महान् सीमाग्र-शाली जमदग्निजन्म परशुरामजीने घोर तपस्या की और इससे उन्हें परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हुई।

राजा अम्बरीषकी गाथी हुई गाथा और ब्राह्मण-जनक-संवादका वर्णन


ब्राह्मणने कहा—देवि! संसारमें सत्य, रज और तप—ये तीन मेरे शत्रु हैं। वे गुणोंके संबन्धसे ही प्रकारके माने गये हैं। हर्ष, प्रीति और आनन्द—ये तीन सात्त्विक गुण हैं; लुप्ता, श्रेय और अभिनिवेश—ये तीन राजस गुण हैं और श्रम, तन्त्रा तथा मोह—ये तीन तामस गुण हैं। शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, आत्मस्थान और धर्मवान् पुरुष शम-दम आदि बाणसमूहोंके द्वारा इन पूर्वोक्त गुणोंका उच्छेद करके दूसरोंको जीतनेका उत्साह करते हैं। इस विषयमें पूर्वकालकी बातोंके जानकार लोग एक गाथा सुनाया करते हैं। पहले कभी शान्तिपरायण महाराज अम्बरीषने इस गाथाका गान किया था। कहते हैं—जब दोषोंका बल बड़ा और अच्छे गुण दबने लगे, उस समय महापराश्वी महाराज अम्बरीषने बलपूर्वक राज्यकी बागडोर अपने हाथमें ली। उन्होंने अपने दोषोंको दबाया और उत्तम गुणोंका आदर किया। इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने यह गाथा गायी—'मैंने बहुतसे दोषोंपर विजय पायी और समस्त शत्रुओंका नारा कर डाला; किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है। मछलि यह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अबतक मैं उसका नारा कर न सका। उसीकी प्रेरणासे प्राणीको घंराग्य नहीं होता। उसके बधने पड़ा हुआ मनुष्य नीच कर्मोंकी ओर दौड़ता है और उसे अपनी अवस्थाका भ्रान नहीं

होता। उससे प्रेरित होकर वह नहीं करने योग्य काम भी कर डालता है। उस दोषका नाम है सोम। उसे जानबूझी तलवारसे काट डालो, काट डालो। सोमसे लुप्ता और लुप्ततासे चिन्ता घंसा होती है। सोमो मनुष्य पहले राजस गुणोंको याता है और उनकी प्राप्ति हो जानेपर उसमें तामसात्मिक गुण भी अधिक मात्रामें आ जाते हैं। उन गुणोंके द्वारा देह-यगनमें जड़-इकर वह धारंवार जन्म लेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है। किंर जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके सब विसर्ग-विसर्ग होकर बिखर जाते हैं और वह मृत्युको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फिर जन्म-मृत्युके चयनमें पड़ता है; इसलिये इस सोमके रक्षकको अच्छी तरह समझकर इसे धर्मपूर्वक बधने और आत्मराज्यपर अधिकार पानेकी इच्छा करनी चाहिये। यही ब्रह्मविद्वान् राज्य है। यहीं दूसरा कोई राज्य नहीं है। आत्माका यथापे मान हो जानेपर यही राजा है।'

इस प्रकार पराश्वी राजा अम्बरीषने आत्मराज्यकी आगे रक्षकर एकमात्र प्रदत्त शत्रु सोमका उच्छेद करने हुए उपयुक्त गाथाका गान किया था।

ब्राह्मणने कहा—देवि! इसी प्रसंगमें एक ब्राह्मण और राजा जनकके संवादरूप प्राचीन इन्द्रियोंका उच्छेद दिया जाता है। एक समय राजा जनकने वि

पकड़े हुए ब्राह्मणको दण्ड देते हुए कहा—'ब्रह्मन् ! आप मेरे राज्यसे बाहर चले जाइये ।' यह सुनकर ब्राह्मणने उस



श्रेष्ठ राजाको उत्तर दिया—'महाराज ! बताइये, आपके अधिकारमें कितना राज्य है ? इस बातको जानकर मैं शास्त्रके अनुसार आपकी आज्ञा पालन करनेकी—दूसरे राजाके राज्यमें निवास करनेकी चेष्टा करूँगा ।'

उस यशस्वी ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा जनक दार-दार गरम उच्छ्वास लेने लगे, कुछ जवाब न दे सके। थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वे ब्राह्मणसे बोले—'ब्रह्मन् ! यद्यपि वाप-दादोंके समयसे ही मिथिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है तथापि जब मैं विचार-दृष्टिसे देखता हूँ तो सारी पृथ्वीमें खोजनेपर भी कहीं मुझे अपना राज्य नहीं दिखायी देता। जब पृथ्वीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने मिथिलामें खोज की। जब वहाँसे भी निराशा हुई तो अपनी प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया; किंतु उनपर भी अपने अधिकारका निश्चय न हुआ। अन्ततोगत्वा मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टिसे यह शरीर भी मेरा नहीं

है और दूसरी दृष्टिसे सारी पृथ्वी ही मेरी है। यह जिस तरह मेरी है उसी तरह दूसरोंकी भी है; इसलिये अब आपकी जहाँ इच्छा हो, रहिये ।'

ब्राह्मणने कहा—राजन् ! जब वाप-दादोंके समयसे ही मिथिला-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है तो बताइये, किस विचारसे आपने इसके प्रति अपनी मनता को त्याग दिया है ? किस बुद्धिका आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते ?

जनकने कहा—ब्रह्मन् ! इस संसारमें कर्मके अनुसार प्राप्त होनेवाली सभी अवस्थाओंका एक-न-एक दिन अन्त हो जाता है, यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। वेद भी कहता है—'यह किसकी वस्तु है ? यह किसका धन है ? (अर्थात् किसीका नहीं है)।' इसलिये जब मैं अपनी बुद्धिसे विचार करता हूँ तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती, जिसे अपनी कह सकूँ। इसी विचारसे मैंने मिथिलाके राज्यसे अपना समत्व हटा लिया है। अब जिस बुद्धिका आश्रय लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ, उसको सुनो। मैं अपनी नासिकामें पहुँची हुई सुगन्धको भी अपने मुखके लिये नहीं ग्रहण करना चाहता। इसलिये मैंने पृथ्वीको जीत लिया है और वह सदा मेरे वशमें रहती है। मुखमें पड़े हुए रसोंका भी मैं अपनी तृप्तिके लिये नहीं आस्वादन करना चाहता, इसलिये जल-तत्त्वपर भी मैं विजय पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अधीन रहता है। इसी प्रकार नेत्रके विषयभूत रूप और ज्योतिका, त्वक्-इन्द्रियको प्राप्त हुए स्पर्शका, श्रवणगोचर शब्दोंका और मनमें आये हुए मन्तव्य विषयोंका भी मैं अपने मुखके लिये अनुभव करना नहीं चाहता। इसलिये मैंने तेज, वायु, आकाश और मनको भी जीत लिया है तथा वे सभी सदा मेरे वशमें रहते हैं। मेरे प्रत्येक कार्यका आरम्भ देवता, पितर, भूत और अतिथियोंके निमित्त होता है।

जनककी ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण ठहाका मारकर हँस पड़ा और कहने लगा—'महाराज ! आपको मालूम होना चाहिये कि मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये ब्राह्मणका रूप धारण करके यहाँ आया हूँ। अब मुझे निश्चय हो गया कि संसारमें सत्त्वगुणरूप नेमिसे घिरे हुए और कभी पीछेकी ओर न लौटनेवाले ब्रह्म-प्राप्तिरूप दुर्निवार-चक्रका सञ्चालन करनेवाले एकमात्र आप ही हैं ।'

ब्राह्मणका अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय देना तथा श्रीकृष्णका अर्जुनसे मोक्ष-धर्मके विषयमें गुरु और शिष्यका संवाद सुनाना

ब्राह्मणने कहा—भोव ! तुम अपनी बुद्धिसे मुझे जैसा समझकर फटकार रही हो, मैं वंसा नहीं हूँ । मैं इस लोकमें देहाभिमानीयोंकी तरह आचरण नहीं करता । तुम मुझे पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; किन्तु वास्तवमें मैं ऐसा नहीं हूँ । मैं ब्राह्मण, जीवन्मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब कुछ हूँ । इस भूतलपर जो कुछ दिलायी देता है, यह सब मेरे द्वारा व्याप्त है । ज्ञान ही मेरा धन है, यही ब्रह्मवेत्ताओंका एकमात्र मार्ग है । ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास—इन चार आधमोंमेंसे किसीमें भी रहें, वे ज्ञानमार्गके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । भिन्न-भिन्न आधमोंमें रहते हुए भी जितकी बुद्धि शान्तिके साधनमें लगी हुई है, वे अन्तमें एकमात्र सत्त्वस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । यह मार्ग बुद्धिगम्य है, शरीरके द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता । इसलिये देवि ! तुम्हें परलोकके लिये तनिक भी भय नहीं करना चाहिये । तुम मेरे साथ अपने तावात्म्यका चिन्तन करती हुई अन्तमें मेरे ही स्वरूपको प्राप्त हो जाओगी ।

ब्राह्मणी बोली—नाथ ! मेरी बुद्धि थोड़ी और अन्तःकरण अशुद्ध है, अतः आपने संक्षेपमें जित महान् ज्ञानका उपदेश किया है उसको समझना मेरे लिये कठिन है । मैं तो उसे सुनकर भी धारण न कर सकी । अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे मुझे भी यह बुद्धि प्राप्त हो । मेरा विश्वास है कि वह उपाय आपहीसे प्राप्त हो सकता है ।

ब्राह्मणने कहा—देवि ! तुम बुद्धिको नीचेकी अरणी और गृहको ऊपरकी अरणी समझो । तपस्या और वेद-वेदान्तके श्रवण-मननद्वारा मग्न करके उन अरणियोंसे ज्ञानरूप अग्नि प्रकट होती है ।

ब्राह्मणीने पूछा—नाथ ! क्षेत्र नामसे प्रसिद्ध शरीरान्तर्वर्ती जीवात्माको जो ब्रह्मका स्वरूप बताया जाता है, यह बात कैसे सम्भव है ? क्योंकि जीवात्मा ब्रह्मके नियन्त्रणमें रहता है और जो जिसके नियन्त्रणमें रहता है, वह उसका स्वरूप हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया ।

ब्राह्मणने कहा—देवि ! क्षेत्र वास्तवमें वेद-सम्बन्धसे रहित और निर्गुण है; क्योंकि उसके सगुण और साकार होनेका कोई कारण नहीं दिलायी देता (ऐसी वरामें वह ब्रह्मसे भिन्न कैसे हो सकता है ?) ।

सगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—अर्जुन ! ब्राह्मणके इस

प्रकार उपदेश देनेपर उस ब्राह्मणीकी बुद्धिमें पहले क्षेत्रका ज्ञान हुआ, फिर उससे भिन्न क्षेत्रज्ञके ज्ञानद्वारा वह परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो गयी ।

अर्जुन बोले—भगवन् ! इस समय आपकी कृपासे सूक्ष्म विषयके श्रवणमें मेरा मन लग रहा है, अतः जाननेयोग्य परब्रह्मके स्वरूपको व्याख्या कीजिये ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—अर्जुन ! इस विषयको लेकर गुरु और शिष्यमें जो मोक्षविषयक संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है । एक दिन उत्तम व्रतका पालन करनेवाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य अपने आसन-पर विराजमान थे । उस समय किसी बुद्धिमान् शिष्यने उनके पास जाकर निवेदन किया—‘भगवन् ! मैं कल्याण-



मार्गमें प्रयुक्त होकर आपके शरणमें आया हूँ और आपके शरणोंमें भरतक मुक्तिकार धारणा करता हूँ कि मैं जो कुछ पूछूँ, उसका उत्तर दीजिये । मैं जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्या है ? जगत्के धराचर जीव बहति उत्पन्न हुए हैं ? किससे जीवन धारण करते हैं ? उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी है ? सत्य और तप क्या है ? तानुरणित किन

गुणोंकी प्रशंसा की है ? तीन-तीन-से मार्ग फलघाण करनेवाले हैं ? सर्वोत्तम गुण क्या है ? और पाप कितने कहते हैं ? यह सब जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है, अतः आप इन प्रश्नोंका उत्तर देनेकी कृपा करें। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो सब प्रकारकी शङ्काओंका निवारण कर सके।'

अर्जुन ! यह शिष्य सब प्रपत्तियों के गुणोंकी शरणमें आया था। यथोचित रीतिसे प्रश्न करता था। गुणवान् और शान्त था। छायाकी भाँति राध रहकर मुझकी सेवामें लगा रहता था तथा जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी था। उसको पुछनेपर मेधावी एवं व्रतधारी मुझे पूर्वापत्त सभी प्रश्नोंका ठीक-ठीक उत्तर दिया।

मुझने कहा—वेदा ! ब्रह्माजीने वेद-वित्ताका आश्रय लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नोंका उत्तर पहलेसे ही दे रखा है तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोंने उसका सवा ही रक्षण किया है। उन प्रश्नोंके उत्तरमें परमार्थविषयक विचार किया गया है। मैं शान्तकी ही परब्रह्म और संन्यासकी उत्तम तप मानता हूँ। जो अज्ञातित ज्ञान-सत्यकी निश्चयपूर्वक जानकर अपनेको सब प्राणियोंके भीतर स्थित देखता है, वह सर्वपति (सर्वज्ञ अथवा सर्वज्ञापक) माना जाता है। जो किसी वस्तुकी फामना नहीं करता तथा जिसके मनमें किसी बातका अभिमान नहीं होता, वह इस लोकमें रहता हुआ ही ब्रह्मभावकी प्राप्ति हो जाता है। जो माया और सत्त्वादि गुणोंके सत्यको जानता है, जिसे सब भूतोंके कारणका ज्ञान है और जो ममता तथा अहंकारसे रहित हो गया है, उसकी भुक्तिमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह वेद एक चक्षुके समान है, अज्ञान इसका मूल अङ्गुर (जड़) है, बुद्धि स्थान्ध (तना) है, अहंकार शाखा है, इन्द्रियों लोखले हैं, पञ्चमहाभूत उसके विशेष अवयव हैं और उन भूतोंके विशेष भेद उसकी धृत्तियाँ हैं। इसमें सवा ही संकल्परूपी पत्ते उगते और फलरूपी फूल लिलते रहते हैं। शुभाशुभ फलोंसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही उसमें सवा लगे रहनेवाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्मरूपी धोजसे प्रकट होकर प्रयाहरूपसे सवा मौजूद रहनेवाला वेदरूपी युवा समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। जो इसको सत्यको भलीभाँति जानकर ज्ञानरूपी तलवारसे इसे फाट डालता है, वह अमरत्वकी प्राप्ति होकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है।

महाप्राज्ञ ! जिसमें भूत, पतंगमान और भविष्य आदिके तथा धर्म, अर्थ और कामके स्वरूपका निश्चय किया गया है, जिसको सिद्धोंके सन्वायने भलीभाँति जाना है, जिसका पूर्व-कालमें निर्णय किया गया था और मनीषी पुढव जिसे जानकर

सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन ज्ञानका अब मैं तुम्हारे वर्णन करता हूँ। पहलेकी बात है, प्रजापति ब्रह्म, भरद्वाज, भीतम, भृगुनन्दन शुक्र, चरिष्ट, कश्यप, विश्वामित्र और अत्रि आदि महर्षि अपने कर्मोंद्वारा समस्त मार्गोंमें भटकते-भटकते जब वृत्त थका गये तो एकचित्त हो आपसमें जिबारा करते हुए परम बुद्ध अङ्गिरा मुनिको आगे करके ब्रह्मलोकमें गये और वहाँ गुणपूर्वक बँटे हुए ब्रह्माजीका वर्णन करके उन्होंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर तुम्हारी ही तरह अपने परम फलघाणके विषयमें पूछा।

(तब) ब्रह्माजीने कहा—उत्तम व्रतका पालन करने-



वाले महर्षियो ! चराचर जीव सत्य (परमात्मा) से उत्पन्न हुए हैं और तपस्या (कर्म) से जीवन धारण करते हैं। ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य है। सत्यसे ही सम्पूर्ण भूतोंका जन्म हुआ है। यह भौतिक जगत् सत्यरूप ही है। इसलिये सवा योगमें लगे रहनेवाले, क्रोध और संतापसे दूर रहनेवाले और नियमोंका पालन करनेवाले धर्मसेयी ब्राह्मण सत्यका आश्रय लेते हैं। जो परस्पर एक दूसरेकी नियमके अंदर रखनेवाले, धर्म-भ्रमणियोंके प्रयत्न और विद्वान् हैं, उन ब्राह्मणोंके प्रति मैं लोफकल्याणकारी सनातन धर्मोंका उपदेश करूँगा। प्रत्येक वर्ण और आश्रमके लिये पुष्यक-

पूयक चार विद्याओंका वर्णन करेगा। मनीषी विद्वान् चार चरणोंवाले एक धर्मको नित्य चलताते हैं। द्विजबरो! पूर्वकालमें मनीषी पुरप जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्मभावकी प्राप्तिका मुनिरिचत साधन है, उस परम मङ्गलकारी कल्याणमय मार्गका उपदेश करता हैं, उसे ध्यान देकर सुनो। यह सारा-का-सारा उपदेश परमपदका साधन है। आश्रमोंमें ब्रह्मचर्यको प्रथम आश्रम चलताया गया है। गार्हस्थ्य दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है, इसके बाद संन्यास आश्रम है। इसमें आत्मज्ञानकी प्रधानता होती है, अतः इसे परम पदस्वरूप समझना चाहिये। जबतक अध्यात्म-ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती तभीतक ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इन्द्र और प्रजापति आदिके पूयक-पूयक दर्शन होते हैं। आत्मज्ञान होनेपर इनका नानात्व नहीं बूटिगोचर होता, अतः पहले आत्मज्ञानका उपाय चलताता हैं; सब लोग सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन द्विजातिमेंके लिये वानप्रस्थ-आश्रमका विधान है। वनमें रहकर मुनिवृत्तिका सेवन करते हुए फल-मूल और वायुके आहारपर जीवन-

निर्वाह करनेसे वानप्रस्थ-धर्मका पालन होता है। गृहस्थ-आश्रमका विधान सभी वर्गके लिये है। विद्वान् पुरपके धडाको ही धर्मका मुख्य सशण बतनाया है। पदंयान् सं-महात्मा अपने कर्मसे धर्म-भर्यावाका पालन करते हैं। जो मनुष्य उत्तम धतका आश्रय लेकर उपमन्युत धर्मसे निर्भर भी दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, वे कालक्रमसे सम्पूर्ण प्राणियोंके जन्म और मरणको प्रत्यक्ष देखते हैं। अब मैं यथायं युक्तिके द्वारा विषयोंमें स्थित सम्पूर्ण तत्त्वोंका विभागपूर्वक वर्णन करता हूँ। अत्यन्त प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, स्यारह इन्द्रियाँ, पञ्च महाभूत और उनके शब्द आदि विभेन गुण तथा जीवात्मा—इस प्रकार तत्त्वोंकी संख्या पचीस बतलायी गयी है। जो इन सब तत्त्वोंकी उत्पत्ति और सगरो ठीक-ठीक जानता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें धीर है और सभी मोहमें नहीं पड़ता। जो सम्पूर्ण तत्त्वों, गुणों तथा समस्त देवताओंको यथार्थ रूपसे जानता है, उसके पाप धूल जाने हैं और वह बगधनसे मुक्त होकर सम्पूर्ण दिव्यलोकोके गुप्तका अनुभव करता है।

ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुणके कार्योंका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा—महापयो! जब तीनों गुणोंकी साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम अघ्नक प्रकृति होता है। अघ्नक समस्त प्राकृत कार्योंमें ध्यापक, अविनाशी और स्थिर होता है। उपमन्युत तीन गुणोंमें जब विषमता आती है तो वे पञ्चभूतका रूप धारण करते हैं और उनमें नौ द्वारवाले नगर (शरीर) का निर्माण होता है। इस पुरमें जीवात्माको विषयोंकी ओर प्रेरित करनेवालो स्यारह इन्द्रियाँ हैं। इसको अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई है। बुद्धि इस नगरकी स्वामिनी है। इसमें जो तीन द्योत (चिह्नरूपी नदीके प्रवाह) हैं, वे सदा भरे रहते हैं। इन्हें भरनेके लिये तीन गुणमयो नाड़ियाँ हैं। सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरेके अभिन्न और एक दूसरेके सहारे टिकनेवाले हैं। जहाँ तमोगुणको रोका जाता है वहाँ रजोगुण बढ़ता है और जहाँ रजोगुणको दबाया जाता है वहाँ सत्त्वगुणकी बुद्धि होती है। तमको अन्धकाररूप समझना चाहिये। उसका दूसरा नाम मोह है। वह अधर्मको सक्षित करनेवाला और पाप करनेवाले लोगोंमें निरिचतरूपसे विघ्नमान रहनेवाला है। तमोगुणका यह स्वरूप दूसरे गुणोंसे मिश्रित भी दिखायी देता है। रजोगुणकी प्रकृतिरूप बतलाया गया है, यह सृष्टिकी उत्पत्तिकी कारण है।

सम्पूर्ण भूतोंमें इसकी प्रयत्ति देती जाती है। इसीसे इस दुःख-जगत्की उत्पत्ति हुई है। सब भूतोंमें प्रजाग, सप्तता (गर्व-हीनता) और धडा—यह सत्त्वगुणका रूप है। गर्वहीनताकी साधु पुत्रोंसे प्रशांसा की है। अब मैं दुःखपूर्वक संशय और विस्तारके साथ इन तीनों गुणोंके कार्योंका यथायं वर्णन करता हूँ, इन्हें ध्यान देकर सुनो। मोह, अज्ञान, त्यागका अभाव, कर्मोंका निर्णय न कर सजना, निद्रा, गर्व, मय, लोभ, शोक, शून्य कर्मोंमें दोष देखना, स्मरण-शक्तिका अभाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, दुःखरिचना, निर्वासयता (अच्छे-खुशके बिबेकका अभाव), इन्द्रियोंकी मिथिलता, हिंसा आदि निन्दनीय दोषोंमें प्रवृत्त होना, अर्थोंको कार्य और अज्ञानकी निन्दनीय शान्तता, शान्ति, काममें मन न लगाना, अधडा, मूर्खता-पूर्ण विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना, अज्ञान, आत्मस्य आदिके कारण देहका भारी होना, माव-मन्त्रिका न होना, अजितेन्द्रियता और नीच कर्मोंमें अनुराग—ये सभी दुर्गुण तमोगुणके कार्य बतलाये गये हैं। इनके सिवा और भी जो-जो बातें इस लोकेम निषिद्ध मानी गयी हैं, वे सब तमोगुणी ही हैं। देवता, ब्राह्मण और वैदकी निन्दा करना, दान न देना, अभिमान, मोह, श्रेष्ठ, अमटनशीलता और मान्य—ये सब तामस वर्ताव हैं। (विधि और धडाते रहित) स्पष्ट

योका आरम्भ करना, देश-काल-पात्रका विचार न करके प्रदत्ता और अवहेलनापूर्वक दान देना तथा देवता और तैथिको दिये बिना भोजन करना भी तामसिक कार्य है। तैत्तिरीय, अक्षमा, मत्सरता, अभिमान और अश्रद्धाको रजोगुणका फल माना गया है। संसारमें ऐसे वर्ताववाले धर्मकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले जो भी पापी मनुष्य हैं, सब तमोगुणी माने गये हैं। ऐसे पापी मनुष्योंके लिये जन्ममें जिन योनियोंमें जाना अनिवार्य होता है, उनका रचय दे रहा है। उनमेंसे कुछ तो नीचे नरकोंमें ढकेले जाते और कुछ तिर्यग्योनियोंमें जन्म ग्रहण करते हैं। स्यावर (क्ष-पर्वत आदि) जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सर्प, कीड़े-तोड़े, पक्षी, अण्डज प्राणी, चौपाये, पागल, बहरे, गूंगे तथा य जितने पापमय रोगवाले (कोढ़ी आदि) मनुष्य हैं, वे तमोगुणमें डूबे हुए हैं। अपने कर्मके अनुसार लक्षणोंवाले दुराचारी जीव सदा दुःखमें निमग्न रहते हैं। उनकी तत्त्वतियोंका प्रवाह निम्न दिशाकी ओर होता है, इसलिये वे अवाक् स्रोता कहते हैं। ये सन्न-के-सब तमोगुणी हैं। न (अविद्या), मोह (अस्मिता), महामोह (राग), अध नामवाला तामिस्र और मृत्युरूप अन्धतामिस्र—यह त्रिप्रकारकी तामसी प्रकृति वतलायी गयी है। विप्रवरो ! धर्म, गुण, योनि और तत्त्वके अनुसार मैंने तमोगुणका पूरा-रा वर्णन किया। जो अतत्त्वमें तत्त्व-दृष्टि रखनेवाला है सा कौन-सा मनुष्य इस विषयको अच्छी तरह देख और समझ सकता है ? यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुणकी पहचान है। इस प्रकार तमोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकार-गुणोंका यथावत् वर्णन किया गया। जो मनुष्य इन गुणोंको ठीक-ठीक जानता है, वह तामसिक गुणोंसे सदा मुक्त रहता है।

महर्षियो ! अब मैं तुमलोगोंसे रजोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणोंका यथार्थ वर्णन करूँगा। ध्यान देकर सुनो—संताप, रूप, आयास, सुख-दुःख, सर्वो-गर्मी, ऐश्वर्य, विग्रह, सिंधि, हेतुवाद, मनका प्रसन्न न रहना, बल, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईर्ष्या, इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुटुम्बका पालन, वध, बन्धन, बलेश, क्रय-विक्रय, छेदन, भेदन और विदारणका प्रयत्न, दूसरोंके कवच-तो कतर डालनेकी चेष्टा, उग्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरोंके छिद्र बताना, लौकिक बातोंकी चिन्ता करना, श्चाताप, असत्यभाषण, मिथ्या दान, संशयपूर्ण विचार, तेरस्कारपूर्वक धोखेना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, मलात्कार, स्वाथके लिये सेवा, तृष्णा, दूसरोंके आश्रित

रहना, व्यवहार-कुशलता, नीति, प्रमाद (अपव्यय), परिवार और परिग्रह—ये सभी रजोगुणके कार्य हैं। संसारमें जो स्त्री, पुरुष, भूत, द्रव्य और गृह आदिके पृथक्-पृथक् संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी ही प्रेरणाके फल हैं। संताप, अविश्वास, संकामभावसे अत-नियमोंका पालन, काम्यकर्म, नाना प्रकारके पुण्य (वापी, कूप-तड़ाग आदि पुण्य) कर्म, स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधाकार, वषट्कार, याजन, अध्यापन, यजन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रह, प्रायश्चित्त और मङ्गलजनक कर्म भी राजस माने गये हैं। 'मुझे यह वस्तु मिल जाय, वह मिल जाय' इस प्रकार जो विषयोंको पानेके लिये आसक्तिमूलक उत्कण्ठा होती है, उसका कारण रजोगुण ही है। द्रोह, माया, शठता, मान, चोरी, हिंसा, घृणा, परिताप, जागरण, दम्भ, दर्प, राग, विषयप्रेम, प्रमोद, छूतकीड़ा, लोगोंके साथ विवाद करना, स्त्रियोंके लिये सम्बन्ध बढ़ाना, नाच-बाजा और गानमें आसक्त होना—ये सब राजस गुण हैं। जो इस पृथ्वीपर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थोंकी चिन्ता करते, धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्गके सेवनमें लगे रहते, मनमाना वर्ताव करते और सब प्रकारके भोगोंकी समृद्धिसे आनन्द मानते हैं, वे मनुष्य रजोगुणसे आवृत हैं, उन्हें अर्वाक्लोता कहते हैं। ऐसे लोग इस लोकमें बार-बार जन्म लेकर विषयजनित आनन्दमें मग्न रहते हैं और इहलोक तथा परलोकमें सुख पानेका यत्न किया करते हैं। मुनिवरो ! इस प्रकार मैंने तुमलोगोंसे नाना प्रकारके राजस गुणों और तदनुकूल वर्तावोंका यथावत् वर्णन किया। जो मनुष्य इन गुणोंको जानता है, वह सदा इनके बन्धनोंसे दूर रहता है।

महर्षियो ! अब मैं तीसरे उत्तम गुण (सत्त्वगुण) का वर्णन करूँगा, जो जगत्में सम्पूर्ण प्राणियोंका हितकारी और साधु पुरुषोंका प्रशंसनीय धर्म है। आनन्द, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणताका अभाव, निर्मयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, श्लोका अभाव, किसीके दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम—ये सत्त्वगुणके कार्य हैं। जो इन धर्मोंका आचरण करता है, वह परलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है। ममता, अहंकार और आशाका परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखना और सर्वथा निष्काम हो जाना ही साधु पुरुषोंका सनातन धर्म है। विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, आलस्य-रहित होना, कोमलता, मोहमें न पड़ना, प्राणियोंपर दया करना, चुगली न खाना, हर्ष, संतोष, विस्मय, विनय, सद्-वर्ताव, शान्तिकर्ममें शुद्धभावसे प्रवृत्ति, उत्तम बुद्धि, आसक्तिसे छूटना, जगत्के भोगोंसे उदासीनता, ब्रह्मचर्य, सब प्रकारका त्याग, निर्ममता, फलकी कामना न करना तथा धर्मका निरन्तर

पालन करते रहना—ये सब सत्त्वगुणके कार्य हैं। जो उपमूर्खत बनाविका पालन करते हुए इस जगत्में सत्यका आशय लेते हैं और वेदकी उत्पत्तिके स्थानमूर्त परब्रह्म परमात्मामें निष्ठा रखते हैं, ये ही धीर और साधुदर्रा माने गये हैं। वे धीर पुरुष सब पापोंका त्याग करके शोकसे रहित हो जाते हैं और स्वर्गलोकमें जाकर अनेकों शरीरोंकी सृष्टि करते हैं। सत्त्व-गुणसम्पन्न महात्मा स्वर्गवासो देवताओंकी भाँति ईशित्व, वसित्व और सधिया आदि सिद्धियोंको प्राप्त करते हैं। वे

ऊर्ध्वधोता और वंशारिक देवता माने गये हैं। (योगब्रह्मते) स्वर्गको प्रपन्न होनेपर उनका चित्त भोगजनित संस्कारसे विकृत होता है। उस समय वे जो-जो चाहते हैं, उस-उस वस्तुको पाते और बाँदते हैं। इस प्रकार मनें सुमत्सोमि सत्त्वगुणके कार्योंका वर्णन किया। जो इस विषयकी अच्छी तरह जानता है, उसे मनोवाञ्छित वस्तुकी प्राप्ति होती है तथा वह गुणोंका सेवन करता हुआ भी उनके बन्धनमें नहीं पड़ता।

सत्त्व आदि गुण, प्रकृतिके नाम तथा परमात्मतत्त्वके ज्ञानकी महिमा

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो! सत्त्व, रज और तम— इन गुणोंका सर्वथा पृथक् रूपसे वर्णन करना असम्भव है; क्योंकि ये तीनों गुण अविच्छिन्न (मिले हुए) देखे जाते हैं। ये सभी परस्पर रंगे हुए, एक दूसरेसे अनुप्राणित, अन्योन्या-धित तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस जगत्में जबतक तमोगुण और सत्त्वगुण है तबतक रजोगुण भी सत्ता रहती ही है। ये गुण सदा साथ रहते, साथ-ही-साथ बिखरते, समूह बनाकर यात्रा करते और संघात (शरीर) में मौजूद रहते हैं। ऐसा होनेपर भी कहीं इनमेंसे किसीकी न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता। इस विषयका यथावत् वर्णन किया जाता है। तिमंग्योनियोंमें जहाँ तमोगुणकी अधिकता होती है, वहाँ रजोगुण और सत्त्वगुणकी कमी समझनी चाहिये। मध्य-श्रोता अर्थात् मनुष्य-भोनिमें, जहाँ रजोगुणकी मात्रा अधिक होती है, वहाँ तमोगुण और सत्त्वगुणकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार ऊर्ध्वधोता यानी देव-योनियोंमें जहाँ सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है वहाँ तमोगुण और रजोगुणकी कमी देखी जाती है। सत्त्वगुण इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका कारण है, उसे वंशारिक हेतु मानते हैं। वह इन्द्रियों और उनके विषयोंको प्रकाशित करनेवाला है। सत्त्वगुणसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित पुरुष मध्यमें अर्थात् मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एवं आस्त्य आदिमें स्थित हुए तामस मनुष्य अधो-गतिको प्राप्त होते—नीच योनियों अथवा सरक्रीमें पड़ते हैं। शूद्रमें तमोगुणकी, क्षत्रियमें रजोगुणकी और ब्राह्मणमें सत्त्व-गुणकी प्रधानता होती है। इस प्रकार इन तीन वर्णोंमें मुख्यतासे ये तीन गुण रहते हैं। तमोगुण, सत्त्वगुण और रजोगुण—ये सर्वथा पृथक्-पृथक् हैं, ऐसा कभी नहीं बुना

गया। सूर्यका प्रकाश सत्त्वगुण है, उनका ताप रजोगुण है और अमावास्याके दिन जो उनपर ग्रहण लगता है वह तमोगुणका कार्य है। इस प्रकार सभी ज्योतिषोंमें तीनों गुण क्रमशः प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं। गुणोंके वेदसे दिनको भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। रात भी तीन प्रकारकी होती है तथा मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु और संख्याके भी तीन-तीन भेद होते हैं। तीन प्रकारसे दान दिये जाते हैं। तीन प्रकारका यतानुष्ठान होता है। सोम, देव, विद्या और गति भी तीन-तीन प्रकारकी होती है। मूल, वर्तमान, भविष्य, धर्म, अर्थ, काम, प्राण, अपान और उदान—ये सब त्रिगुणात्मक ही हैं। इस जगत्में जो कोई भी वस्तु भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपलब्ध होती है, वह सब त्रिगुणमय है। सर्वत्र तीनों गुणोंकी ही सत्ता है। ये तीनों अव्यक्त स्वस्व हैं। सत्त्व, रज और तम इनकी सृष्टि सनातन है। प्रकृतिको तम, अस्पष्ट, शिव, धाम, रज, योनि, सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रमय, अप्यय, अनुचित, अन्ध, अकर्म, अचल, द्रव्य, सत्, असत् और त्रिगुणात्मक करते हैं। अध्यात्मतत्त्वका चिन्तन करनेवाले लोगोंको इन नामोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। जो मनुष्य प्रकृतिके इन नामों, सत्त्वादि गुणों और सम्पूर्ण गतिजोंको ठीक-ठीक जानता है, वह गुण-विभागके तत्त्वज्ञाता है। उसके ऊपर सांसारिक दुःखोंका प्रभाव नहीं पड़ता। वह देह-भागके परवान् सम्पूर्ण गुणोंके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है।

महर्षियो! परमात्मतत्त्वको जानेवाला विद्वान् ब्राह्मण कभी मोहमें नहीं पड़ता। परमात्मा सब ओर हाथ-पैर-बाण, सब ओर नेत्र, सिर और मुखवाला तथा सब ओर जानवाण है; क्योंकि वह सांसारिक सबको व्याप्त करके स्थित है। सबके हृदयमें विराजमान पुरुष (परमात्मा) का प्रभाव बहुत बड़ा

अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियाँ उसीके स्वरूप हैं। वह सबका शासन करनेवाला, ज्योतिर्मय और विनाशी है। संसारमें जो मनुष्य बुद्धिमान्, सद्भावपरायण, ध्यानी, योगी, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, ज्ञानवान्, लोभहीन, मोक्षको जीतनेवाले, प्रसन्न चित्त, धीर तथा ममता और अहंकारसे रहित हैं, वे सब मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं। जो महान् आत्माको महिमाको जानता है उसे

पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है। जब पञ्चमहाभूतोंके विनाशके समय प्रलयकाल उपस्थित होता है, उस समय समस्त प्राणियोंको महान् भयका सामना करना पड़ता है; किंतु आत्मजानी धीर पुरुष उस समय भी मोहित नहीं होता। जो इस प्रकार बुद्धिरूपी गुहामें स्थित, विश्वरूप, पुराण-पुरुष, हिरण्मय देव और ज्ञानियोंकी परम गतिरूप परम प्रभुको जानता है, वह बुद्धिमान् बुद्धिकी सीमाके पार पहुँच जाता है।

अहंकारसे पञ्चमहाभूतों और इन्द्रियोंकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका वर्णन तथा निवृत्तिमार्गका उपदेश

ब्रह्माजीने कहा—महर्षिगण ! अहंकारसे पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज—ये पञ्चमहाभूत उत्पन्न हुए हैं। इन्हों पञ्चमहाभूतोंमें अर्थात् इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धबामक विषयोंमें समस्त प्राणी मोहित रहते हैं। महाभूतोंका नाश होनेके समय जब प्रलयका अवसर आता है उस समय समस्त प्राणियोंको महान् भयका सामना करना पड़ता है। जो भूत जिससे उत्पन्न होता है उसका उसीमें लय हो जाता है। ये भूत अनुलोमक्रमसे एकके बाद एक प्रकट होते हैं और विलोमक्रमसे इनका अपने-अपने कारणमें लय होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण चराचर भूतोंका लय हो जानेपर भी स्मरण-शक्तितसे सम्पन्न धीरहृदय योगी पुरुष नहीं लीन होते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध तथा इनको ग्रहण करनेकी क्रियाएँ—ये करणरूपसे (अर्थात् सूक्ष्म मनःस्वरूप होनेके कारण) नित्य हैं, अतः इनका भी प्रलयकालमें लय नहीं होता। स्थूल पदार्थ अनित्य हैं और उनको मोहके नामसे पुकारा जाता है। शरीरके बाह्य अङ्ग रक्त-मांसके संघात आदि स्थूल एवं अनित्य हैं। इसीलिये ये चीन और कृपण माने गये हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान—ये पाँच वायु नियतरूपसे शरीरके भीतर निवास करते हैं; अतः ये सूक्ष्म हैं। मन, वाणी, और बुद्धिके साथ गिननेसे इनकी संख्या आठ होती है। ये आठ इस जगत्के उपादान कारण हैं। जिसकी त्वचा, नासिका, कान, आँख, रसना और वाक्—ये इन्द्रियाँ वषांमें हों, मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चयपर स्थिर रहनेवाली हो; जिसके मनको उपर्युक्त इन्द्रियादिरूप आठ अग्नियाँ संतप्त न करती हों, वह पुरुष कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त होता है। उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता।

द्विजवरो ! अहंकारसे उत्पन्न हुई जो ग्यारह इन्द्रियाँ बतलायी जाती हैं, उनका अब विशेषरूपसे वर्णन कहूँगा,

सुनो—कान, त्वचा, आँख, रसना, नाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाक्—ये दस इन्द्रियाँ हैं। मन ग्यारहवों इन्द्रिय है। मनुष्यको पहले इन इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनी चाहिये। तत्पश्चात् उसे ब्रह्मका साक्षात्कार होता है। इन इन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं और पाँच कर्मेन्द्रिय। कान आदि पाँच इन्द्रियोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं और शेष पाँच इन्द्रियाँ कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं। मनका सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनोंसे है और बुद्धि चारहवों इन्द्रिय है। इस प्रकार क्रमशः ग्यारह इन्द्रियोंका वर्णन किया गया। इनके तत्त्वको अच्छी तरह जाननेवाले विद्वान् अपनेको कृतार्थ मानते हैं।

अब समस्त ज्ञानेन्द्रियोंके भूत, अधिभूत आदि विविध विषयोंका वर्णन किया जाता है। आकाश पहला भूत है। कान उसका अध्यात्म (इन्द्रिय), शब्द उसका अधिभूत (विषय) और दिशाएँ उसकी अधिदेवत (अधिष्ठातृ देवता) हैं। वायु दूसरा भूत है, त्वचा उसका अध्यात्म, स्पर्श उसका अधिभूत और विद्युत् उसका अधिदेवत है। तीसरे भूतका नाम है तेज; नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदेवत है। जलको चौथा भूत समझना चाहिये; रसना उसका अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चन्द्रमा उसका अधिदेवत है। पृथ्वी पाँचवाँ भूत है; नासिका उसका अध्यात्म, गन्ध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदेवत है। इन पाँच भूतोंमें जो अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव हैं, उनका वर्णन किया गया। अब कर्मेन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विविध विषयोंका निरूपण किया जाता है। तत्त्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरोंको अध्यात्म कहते हैं और गन्तव्य स्थानको उनके अधिभूत तथा विष्णुको उनके अधिदेवत बतलाते हैं। गुदा अध्यात्म है और मलत्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके अधिदेवता हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्पन्न

करनेवाला उपस्थ अध्यात्म है और वीर्य उसका अधिमूल तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता देवता हैं। दोनों हाथ अध्यात्म बतलाये गये हैं; कर्म उनके अधिमूल और इन्द्र उनके अधिदेवता हैं। वाणी अध्यात्म है और वचनव्य उसका अधिमूल तथा अग्नि उसका अधिदेवता है। पञ्चमूर्तियोंका संचालन करनेवाला मन अध्यात्म कहा गया है; संकल्प उसका अधिमूल है और चन्द्रमा उसके अधिष्ठाता देवता माने गये हैं। सम्पूर्ण संसारको जन्म देनेवाला अहंकार अध्यात्म है और अभिमान उसका अधिमूल तथा रूद्र उसके अधिष्ठाता देवता हैं। विचार करनेवाली बुद्धि अध्यात्म मानी गयी है; मन्तव्य उसका अधिमूल और ब्रह्मा उसके अधिदेवता हैं। प्राणियोंके रहनेके तीन ही स्थान हैं—जल, पल और आकाश। चौथा स्थान सम्भव नहीं है। देह-धारियोंका जन्म चार प्रकारका होता है—अण्डज, उद्भिज्ज, स्वेदज और जरायुज। तपस्या और पुण्यकर्मका अनुष्ठान—यही विद्वानोंका कर्तव्य है। कर्मके अनेकों भेद हैं, उनमें यज्ञ और दान—ये प्रधान हैं। बृह पुराणोंका कहना है कि द्विजोंके कुलमें उत्पन्न हुए पुत्रके लिये वेदोंका अध्ययन अत्यन्त पुण्यका कार्य है। जो मनुष्य इस विषयको विधिपूर्वक जानता है, वह योगी होता है तथा उसे सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार मीने तुमलोगीसे अध्यात्म-विधिका यथावत् वर्णन किया। शानी पुराणोंको इस विषयका सम्पू्क ज्ञान होता है। इन्द्रियों, उनके विषयों और पञ्चमहामूर्तियोंके एकताका विचार करके उसे मनमें अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिये। मनके क्षीण होनेके साथ ही सब वस्तुओंका क्षय हो जानेपर मनुष्यको जन्मके सुख (लौकिक सुख-भोग आदि) की इच्छा नहीं होती। जिनका अन्तःकरण ज्ञानसे सम्पन्न होता है, उन विद्वानोंको उसीमें सुखका अनुभव होता है।

महर्षियो! अब मैं मनकी सूक्ष्म भावनाको जाप्रत करनेवाली निवृत्तिके विषयमें उपदेश देता हूँ। जहाँ गुण होते हुए भी नहींके बराबर हैं, जो अभिमानसे रहित और एकान्तचर्यसे युक्त है तथा जिसमें भेद-भ्रष्टिका सर्वथा अभाव है, वही ब्रह्मस्य ज्ञातव्य बतलाया गया है, वही समस्त

सुखोंका एकमात्र आधार है। जैसे बटुआ अपने अङ्गुलीको सब ओरसे समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको संकुचित करके रजोगुणसे रहित हो जाता है, वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त एवं मुक्त होता है। जो कामनाओंको अपने भीतर लीन करके त्यागने रहित, एकाग्रचित्त और सम्पूर्ण प्राणियोंका मुहूर्त होता है, वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र ही जाना है। विद्वानोंकी अभिमान रहनेवाली समस्त इन्द्रियोंको शान्त करके अन्तःकरणका परित्याग करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे इन्द्र अपने अन्तःकरणको शान्त करके अत्यन्त उदात्त दिशाकी देवी है; उसी प्रकार इन्द्रियोंका निरोध करनेसे परमात्मके प्रकाशका विद्योत अनुभव होने लगता है। जिस समय योगी प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने अन्तःकरणमें स्थित करने लगता है, उस समय वह स्वयं ज्योतिःस्वरूप होकर सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म परमात्माको प्राप्त होता है। जिसने इस लोभमें तीन गुणोंवाले पाञ्चभौतिक देहका अभिमान त्याग दिया है उसे अपने हृदयाकारामें परब्रह्मरूप उत्तम पदकी उपलब्धि होती है—वह मोक्षको प्राप्त हो जाता है। जिसमें पाँच इन्द्रियरूपी बड़े कगार हैं, जो मनोवेगहयो महान् जलराशिसे भरी हुई हैं और जिसके भीतर मोहमय कुण्ड हैं, उस देहरूपी नदीको त्यागकर जो काम और श्रेय दोनोंको पीत लेता है वही सब दोषोंसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार करता है। जो मनको हृदयकमलमें स्थापित करके अपने भीतर ही ध्यानके द्वारा आत्मदर्शनका प्रयत्न करता है, वह सम्पूर्ण भूतोंमें सर्वज्ञ होता है और उसे अन्तःकरणमें परमात्मतत्त्वका अनुभव होने लगता है। जैसे एक दीपसे संकड़ों दीप जला लिये जाते हैं उसी प्रकार एक ही परमात्मा यत्नरत अनेकों रूपोंमें उपलब्ध होता है। ऐसा निश्चय करके शानी पुराण सबरूपोंको एकसे ही उत्पन्न देखता है। वास्तवमें वही विष्णु, मित्र, वरुण, अग्नि, प्रजापति, धाता, विधाता, प्रभु, सर्वधारी, सम्पूर्ण प्राणियोंका हृदय तथा महान् आत्मा है। ब्राह्मणमन्त्राद्य, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच, पितर, मसी, रामाक्ष, भूत और सम्पूर्ण महर्षि भी सदा उस महत्तमको स्तुति करते हैं।

चराचर प्राणियोंके अधिपतियों, धर्म आदिके लक्षणों और विषयोंकी अनुभूतिके साधनोंका वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकी विलक्षणता

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो! बरगद, जामुन, पीपल, सेमल, शोशम, मेघशृङ्ग (मैदासिंगो) और पीले घाँस—ये इस लोकमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। जिनका अन्तःकरण ज्ञानसे सम्पन्न होता है, उन विद्वानोंको इस

विन्ध्य, त्रिकूट, श्वेत, नील, शाल, माल्यवान्—ये सर्वश्रेष्ठ अधिपति वस्तुओंके समाराज पितरके, सब

और इन्द्र मरुद्गणोंके स्वामी हैं। उष्णप्रभाके अधिपति सूर्य हैं, ताराओंके स्वामी चन्द्रमा हैं और भूतोंके अधीश्वर अग्निदेव हैं। ब्राह्मणोंके स्वामी बृहस्पति, ओषधियोंके सोम, बलवानोंके विष्णु, रूपोंके त्वष्टा तथा पशुओंके अधिपति भगवान् शिव हैं। दीक्षा ग्रहण करनेवालोंके यज्ञ और देवताओंके इन्द्र अधिपति हैं। दिशाओंकी स्वामिनी उत्तर दिशा है, ब्राह्मणोंके प्रतापी राजा सोम हैं, सब प्रकारके रत्नोंके स्वामी कुबेर और प्रजाओंके स्वामी प्रजापति हैं। मैं सम्पूर्ण प्राणियोंका महान् अधीश्वर और ब्रह्ममय हूँ। भुक्तसे अथवा विष्णुसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्ममय महाविष्णु ही सबके राजाधिराज हैं, उन्हींको ईश्वर समझना चाहिये। वे श्रीहरि सबके कर्ता हैं; किंतु उनका कोई कर्ता नहीं है। वे मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं।

राजा धर्म-पालनके इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्मके सेतु हैं; अतः राजाको चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोंकी रक्षाका प्रयत्न करे। जिन राजाओंके राज्यमें साधु-पुरुषोंको कष्ट होता है, वे अपने समस्त राजोचित गुणोंसे हीन हो जाते और मरनेके बाद नरकमें पड़ते हैं। जिनके राज्यमें साधु-ब्राह्मणोंकी सब प्रकारसे रक्षा की जाती है, वे इस लोकमें आनन्दके भागी होते हैं और परलोकमें भी सुख भोगते हैं।

अब मैं सबके नियत धर्म और लक्षणोंका वर्णन करता हूँ। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हिंसा अधर्मका लक्षण (स्वरूप) है। प्रकाश देवताओंका, यज्ञ आदि कर्म मनुष्योंका, शब्द आकाशका, वायु स्पर्शका; रूप तेजका, रस जलका और गन्ध सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करनेवाली पृथ्वीका लक्षण है। स्वर-व्यञ्जनकी शुद्धिसे युक्त वाणीका लक्षण शब्द है। सोच-चिन्तन मनका और निश्चय बुद्धिका लक्षण है; क्योंकि मनुष्य इस जगत्में मनके द्वारा सोची हुई बातोंका बुद्धिसे ही निश्चय करते हैं। साधु-पुरुषका लक्षण बाहरसे व्यक्त नहीं होता (वह स्वसंवेद्य हुआ करता है)। योगका लक्षण प्रवृत्ति और संन्यासका लक्षण ज्ञान है। इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह ज्ञानका आश्रय लेकर संन्यास ग्रहण करे। ज्ञानयुक्त संन्यासी मौत और वृद्धापाको लांघकर सब प्रकारके द्वन्द्वोंसे परे हो अज्ञानान्धकारके पार पहुँचकर परम गतिको प्राप्त होता है।

महर्षियो ! यह मैंने तुम लोगोंसे सबके धर्म एवं लक्षणोंका विधिवत् वर्णन किया, अब यह बता रहा हूँ कि किस गुणको किस इन्द्रियसे ग्रहण किया जाता है। पृथ्वीका जो गन्ध नामक गुण है उसका नासिकाके द्वारा ग्रहण होता है और नासिकामें स्थित वायु उस गन्धका अनुभव करानेमें सहायक होती है। जलका गुण रस है जिसको जिह्वाके द्वारा ग्रहण किया जाता है और जिह्वामें स्थित चन्द्रमा उस रसके आस्वादनमें सहायक होता है। तेजका गुण रूप है और वह नेत्रमें स्थित सूर्यदेवताकी सहायतासे नेत्रके द्वारा देखा जाता है। वायुका गुण स्पर्श है, जिसका त्वचाके द्वारा ज्ञान होता है और त्वचामें स्थित वायुदेव उस स्पर्शका अनुभव करानेमें सहायक होते हैं। आकाशके गुण शब्दका कानोंके द्वारा ग्रहण होता है और कानमें स्थित सम्पूर्ण दिशाएँ शब्दके श्रवणमें सहायक बतायी गयी हैं। मनका गुण चिन्तन है जिसका बुद्धिके द्वारा ग्रहण किया जाता है और हृदयमें स्थित चेतन (आत्मा) मनके चिन्तन-कार्यमें सहायता देता है। निश्चयके द्वारा बुद्धिका और विशुद्ध बुद्धिके द्वारा महत्त्वका ग्रहण होता है। इनके कार्योंसे ही इनकी सत्ताका निश्चय होता है और इसीसे इन्हें व्यक्त माना जाता है; किंतु वास्तवमें तो अतीन्द्रिय होनेके कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्षेत्रज्ञ आत्माका कोई ज्ञापक लिङ्ग नहीं है; क्योंकि वह (स्वयंप्रकाश और) निर्गुण है। अतः क्षेत्रज्ञ अलिङ्ग (किसी विशेष लक्षणसे रहित) है; केवल ज्ञान ही उसका लक्षण (स्वरूप) माना गया है। गुणोंकी उत्पत्ति और लयके कारणभूत अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र कहते हैं। आत्मा उसे जानता है, इसलिये वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ आदि, सध्य और अन्तसे युक्त समस्त अचेतन गुणोंको जानता है; किंतु वे उसे नहीं जान पाते। क्षेत्रज्ञको कोई नहीं जानता, परंतु वह संघको जानता है। इन्द्रियोंके भोगमें आनेवाले जो गुण हैं, उनसे परे विराजमान परब्रह्म परमात्माको क्षेत्रज्ञके सिवा कोई नहीं जानता। अतः इस लोकमें जिनके दोषोंका क्षय हो गया है, वह गुणातीत पुरुष सत्त्व (बुद्धि) और गुणोंका परित्याग करके क्षेत्रज्ञके शुद्ध-स्वरूप परमात्मामें प्रवेश कर जाता है। क्षेत्रज्ञ सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंसे रहित, अचल और अनिकेत है। वही सर्वव्यापक परमात्मा है।

सद्य पदार्थोंके आदि-अन्त, ज्ञानकी नित्यता; देहरूपी कालचक्र तथा गृहस्थके धर्मका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा—महर्षिगण! अब मैं पदार्थोंके आदि, मध्य और अन्तका पर्याय वर्णन करता हूँ। पहले दिन है फिर रात्रि (अतः दिन रात्रिका आदि है। इसी प्रकार) शुक्लपक्ष महीनेका, ध्वज नक्षत्रोंका और शिशिर ऋतुओंका आदि है। गन्धोंका आदि कारण भूमि, रसोंका जल, रूपोंका ज्योतिर्मय आदित्य, स्पर्शोंका वायु और शब्दका आदि कारण आकाश है। ये गन्ध आदि पञ्च-भूतोंसे उत्पन्न गुण हैं। अब मैं भूतोंके आदिका वर्णन करता हूँ। सूर्य समस्त ग्रहोंका और जठरानल सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि बतलाया जाता है। सावित्री सब विद्याओंकी और प्रजापति देवताओंके आदि हैं। अकार सम्पूर्ण वेदोंका और प्राण धाणोंका आदि है। इस संसारमें जो नियत उच्चारण है, वह सब गायत्री कहलाता है। छन्दोंका आदि गायत्री और प्रजाका आदि सृष्टिका प्राग्रभूतका है। गौरों चीपायोंकी, ब्राह्मण मनुष्योंके, याज चिद्धियोंके, उत्तम आहुति यज्ञोंकी, साँप रेंगकर चलनेवाले जीवोंका और सत्ययुग सम्पूर्ण युगोंका आदि है। रत्नोंमें मुवर्ण, अत्रोंमें जो और मध्य-भोज्य पदार्थोंमें अन्न श्रेष्ठ है। बहनेवाले और पीने योग्य पदार्थोंमें जल उत्तम है। समस्त स्थावर भूतोंमें सामान्यतः ब्रह्माजीका क्षेत्र—पाकर नामवाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पवित्र माना गया है। सम्पूर्ण प्रजापतियोंका आदि मैं हूँ और मेरे आदि अचिन्त्यात्मा भगवान् विष्णु हैं। उहाँको स्वयम्भू कहते हैं। पर्वतोंमें सबसे पहले मेरुगिरिकी उत्पत्ति हुई है। दिशा और विदिशाओंमें पूर्वदिशा प्रधान मानी गयी है। सब नदियोंमें द्विपथगा गङ्गा ज्येष्ठ है। सरोवरोंमें सर्वप्रथम समुद्रका प्रादुर्भाव हुआ है। देव, दानव, भूत, विराच, सूर्य, राक्षस, मनुष्य, किन्नर और समस्त यज्ञोंके स्वामी भगवान् शंकर हैं। सम्पूर्ण जगत्के आदि कारण ब्रह्मस्वरूप महाविष्णु हैं। तीनों लोकोंमें उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सब आश्रमोंमें गृहस्थ-आश्रमको प्रधानता दी गयी है। जगत्का आदि और अन्त अत्यन्त प्रकृति ही है। दिनका अन्त है सूर्यास्त और रात्रिका अन्त है सूर्योदय। मुलका अन्त सदा बुध है और बुधका अन्त सदा मुल है। संप्रहका अन्त है विनाश, अन्ते चढ़नेका अन्त है नीचे गिरना, संयोगका अन्त है वियोग और जीवतका अन्त है मृत्यु। जिन-जिन वस्तुओंका निर्माण हुआ है उनका नाम अवश्यन्मायी है। जो जन्म से चुका है उसको मृत्यु निश्चित है। इस जगत्में स्थावर या अजन्म कोई भी सदा

रहनेवाला नहीं है। घास, दान, तप, अध्ययन, दत्त और नियम—इन सबका अन्त होता है, केवल ज्ञानका अन्त नहीं होता। इसलिये विगुण ज्ञानके द्वारा जितका चित्त ज्ञान हो गया है, जिसकी इन्द्रियाँ धर्मों से चुकी हैं तथा जो ममता और अहंकारसे रहित हो गया है, वह सब धर्मोंसे मुक्त हो जाता है।

महर्षियो! मनके समान वेगवाला (देहरूपी) मनोरम कालचक्र निरन्तर चल रहा है। यह महत्त्वसे लेकर स्थूल भूतोंतक चौबीस तत्त्वोंसे बना हुआ है। इसकी गति बहोती भी नहीं सकती। यह संसार-बन्धनका अनिवार्य कारण है। बुढ़ापा और शोक इसे घेरे हुए हैं। यह रोग और दुर्बलताकी उत्पत्तिका स्थान है। देहा और कालके अनुसार विचरण करता रहता है। बुद्धि इस कालचक्रका सार, मन तम्मा और इन्द्रियाँ बन्धन हैं। यह पञ्चमहाभूतोंके समूहसे बना हुआ है। धम तथा ध्यायाम इसके शब्द हैं। रात और दिन इस चक्रका संचालन करते हैं। सर्वाँ और गर्माँ इसका घेरा है। मुल और बुध इसकी सीधियाँ (जोड़) हैं। भूल और प्यास इसके कौलक तथा धूप और छाया इसके रेखा हैं। आँखोंके लोलने और मीचनेसे इसकी व्याकुलता (चञ्चलता) प्रकट होती है। घोर मोहरूपी जल (शोकार्थ) से यह ध्यायत रहता है। यह सदा ही गतिशील और अचेतन है। मात और पस आदिके द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती है। यह कभी भी एक-न्ती अवस्थामें नहीं रहता। ऊपर, नीचे और मध्यवर्ती लोकोंमें सदा चक्कर लगाता रहता है। तमोगुणके वशमें होनेपर इसकी पाप-शुद्धिमें प्रवृत्ति होती है और रजोगुणका वेग इसे मित्र-मित्र कर्मोंमें लगाया करता है। यह मरान् दर्पसे उद्दीप्त रहता है। ताँनों गुणोंके अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। मानसिक चिन्ता ही इस चक्रकी बन्धन-पट्टिका है। यह सदा शोक और मृत्युके यशोग्म रहनेवाला तथा शिवा और कारणसे मुक्त है। आसक्ति ही उसका रीप-विस्तार (संबाई-चोड़ई) है। सोम और मृत्पा ही इन चक्रकी अन्ते-नीचे स्थानोंमें गिरानेके हेतु हैं। अद्भुत भ्रमान (माया) इसकी उत्पत्तिका कारण है। धम और मोह इसे सब ओरसे घेरे हुए हैं। यह प्राणियोंको मोहमें डालनेवाला, आनन्द और प्रीतिके लिये बिचरनेवाला तथा धम और चोपका संग्रह करनेवाला है। यह राम-द्वेषी इन्द्रोपि मुक्त जड़ देहरूपी कालचक्र ही देवताओंतक

सृष्टि और संहारका कारण है। तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिका भी यही साधन है। जो मनुष्य इस देहमय कालचक्रकी प्रवृत्ति और निवृत्तिको अच्छी तरह जानता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता तथा सम्पूर्ण वासनाओं, सब प्रकारके द्वन्द्वों और समस्त पापोंसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त होता है।

ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास—ये चार आश्रम शास्त्रोंमें बताये गये हैं। गृहस्थ-आश्रम ही इन सबका मूल है। इस संसारमें जो कोई भी विधि-निषेधरूप शास्त्र है, उसमें पारंगत विद्वान् होना गृहस्थ द्विजोंके लिये उत्तम बात है। इसीसे सनातन यशकी प्राप्ति होती है। पहले सब प्रकारके संस्कारोंसे सम्पन्न होकर वेदोक्त विधिसे अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करना चाहिये। तत्पश्चात् समावर्तन-संस्कार करके उत्तम गुणोंसे युक्त कुलमें विवाह करना चाहिये। अपनी ही स्त्रीपर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुषोंके आचारका पालन करना और जितेन्द्रिय होना गृहस्थके लिये परम आवश्यक है। उसे श्रद्धापूर्वक पञ्च-महायज्ञोंके द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये। गृहस्थको उचित है कि वह देवता और अतिथिको भोजन करानेके बाद बचे हुए अन्नका स्वयं आहार करे। वेदोक्त कर्मोंके अनुष्ठानमें संलग्न रहे। अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ करे और दान दे। हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शरीरके द्वारा

होनेवाली चपलताका परित्याग करे अर्थात् इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे। यही सत्पुरुषोंका बर्ताव (शिष्टाचार) है। सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे, स्वच्छ वस्त्र पहने, उत्तम व्रतका पालन करे, शौच-संतोष आदि नियमों और सत्य-अहिंसा आदि यमोंके पालनपूर्वक यथाशक्ति दान करता रहे तथा शिष्ट पुरुषोंके साथ निवास करे। शिष्टाचारका पालन करते हुए जिह्वा और उपस्थको काबूमें रखे। सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे। बाँसकी छड़ी और जलसे भरा हुआ कमण्डलु सदा साथ रखे। ब्राह्मणको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और दान तथा प्रतिग्रह—इन छः वृत्तियोंका आश्रय लेना चाहिये। इनमेंसे तीन कर्म—याजन (यज्ञ कराना), अध्यापन (पढ़ाना) और श्रेष्ठ पुरुषोंसे दान लेना—ये ब्राह्मणकी जीविकाके साधन हैं और शेष तीन कर्म—दान, अध्ययन तथा यज्ञानुष्ठान करना—ये धर्मोपार्जनके लिये हैं। धर्मज्ञ ब्राह्मणको इनके पालनमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये। इन्द्रियसंयमी, मित्रभावसे युक्त, क्षमावान्, सब प्राणियोंके प्रति समान भाव रखनेवाला, मननशील, उत्तम व्रतका पालन करनेवाला और पवित्रतासे रहनेवाला गृहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्तिके अनुसार यदि उपर्युक्त नियमोंका पालन करता है तो वह स्वर्गलोकको जीत लेता है।

ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीके धर्मका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो! ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर रहे, विद्वान् बने, सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अधीन रखे, मुनि-व्रतका पालन करे, गुरुका प्रिय और हित करनेमें लगा रहे, सत्य बोलें तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रहे, गुरुकी आज्ञा लेकर भोजन करे। भोजनके समय अन्नकी निन्दा न करे। भिक्षाके अन्नको हविष्य मानकर ग्रहण करे। एक स्थानपर रहे। एक आसनसे बैठें और नियत समयमें भ्रमण करे। पवित्र और एकाग्र चित्त होकर दोनों समय अग्निमें हवन करे। सदा बेल या पलाशका दण्ड लिये रहे। रेशमी अथवा सूती वस्त्र या मृगचर्म धारण करे। अथवा ब्राह्मणके लिये सारा वस्त्र गेरुए रंगका होना चाहिये। ब्रह्मचारी मूँजकी खेल्ला पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेदके स्वाध्यायमें लगा रहे—तथा लोभहीन होकर नियमपूर्वक व्रतका पालन करे। जो ब्रह्मचारी सदा नियम-

परायण होकर श्रद्धाके साथ शुद्ध जलसे सदा देवताओंका तर्पण करता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है।

इसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले उत्तम गुणोंसे युक्त जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकोंपर विजय पाता है। वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस संसारमें जन्म धारण नहीं करता। वानप्रस्थी मुनिको घरकी ममता त्यागकर गाँवसे बाहर निकलकर वनमें निवास करना चाहिये। वह मृगचर्म अथवा वल्कल-वस्त्र पहने। प्रातः और सायंकालके समय स्नान करे। सदा वनमें ही रहे। गाँवमें कभी प्रवेश न करे। अतिथिको आश्रय दे और समयपर उनका सत्कार करे। जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा सावाँ खाकर जीवन-निर्वाह करे। वनके सिवा अन्यत्रकी जल-वायुतकका सेवन न करे। अपने व्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपर्युक्त वस्तुओंका आहार करे। यदि कोई अतिथि आ जाय तो फल-मूलकी भिक्षा देकर उसका सत्कार करे।

कमी आलस्य न करे। जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो, उसीमेंसे अतिथियोंको भिक्षा दे। मौन होकर पहले देवता और अतिथियोंको भोजन दे, उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करे। किसीके साथ साग-जड़ न रखे, हल्का भोजन करे, देवताओंका सहारा ले, इन्द्रियोंका संयम करे, सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे, क्षमाशील बने और दाइने-मूँछ तथा सिरके बालोंको कमी न मुंडावे। समयपर अनिहोव, बेदोंका स्वाध्याय और सत्य-धर्मका पातन करे। शरीरको सदा पवित्र रखे। धर्म-भालनमें कुशलता प्राप्त करे। सदा यनमें रहकर चित्तको एकाग्र किये रहे। इस प्रकार उत्तम धर्मोंका पालन करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वर्गपर विजय पाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अपना वानप्रस्थ कोई भी क्यों न हो, जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे उत्तम वृत्तिका आश्रय लेना चाहिये।

(वानप्रस्थकी अर्वाध पूरी करके) सम्पूर्ण भूतोंकी अमय-दान देकर कर्म-त्यागरूप संन्यास-धर्मका पालन करे। सब प्राणियोंके सुखमें सुख माने। सबके साथ मित्रता रखे। समस्त इन्द्रियोंका संयम और मुनि-वृत्तिका पालन करे। बिना याचना किये, बिना संकल्पके बंवात जो अन्न प्राप्त हो जाय, उस भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करे। गृहस्थोंके यहाँ रसोई-घरसे जब धुआँ निकलना बंद हो जाय, घरके सब लोग खा-पी चुकें और बर्तन धो-मार्जकर रख दिये गये हों, उस समय मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्यासीको भिक्षा लेनेकी इच्छा करनी चाहिये। भिक्षा मिल जानेपर हृष्य और न मिलनेपर विषाद न करे। (सोमवशा) बहुत अधिक भिक्षाका संग्रह न करे। जितनेसे प्राण-प्राज्ञाका निर्वाह हो जतनी ही भिक्षा लेनी चाहिये। संन्यासी जीवन-निर्वाहके ही लिये भिक्षा माँगे। उचित समयतक उसके मिलनेकी बात देखे। चित्तको एकाग्र किये रहे। साधारण स्तरकी भी इच्छा न करे। जहाँ अधिक सम्मान होता हो, वहाँ भोजन न करे। मान-प्रतिष्ठाके लामसे संन्यासीको पुषा करनी चाहिये। वह जूँटे, तिलक, कसले तथा कड़वे अन्न-का स्वाद न ले। मद्युर रसका भी आस्वादन न करे। केवल जीवन-निर्वाहके उद्देश्यसे प्राण-धारणमात्रके लिये उपयोगी अन्नका आहार करे। दूतसे प्राणियोंकी जीविकामें बाधा पहुँचाये बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती हो, तभी उसे स्वीकार करे। भिक्षा माँगते समय दिये जानेवाले अन्नके सिवा दूतरा अन्न लेनेकी कवायि इच्छा न करे। उसे अपने धर्मका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये। रजोगुणसे रहित होकर निर्जल स्वानमें विचरते रहना चाहिये। रातको सोनेके लिये सुने घर, जंगल, वृक्षकी जड़, नदीके किनारे अथवा पर्वतकी

गुफाका आश्रय लेना चाहिये। गाँवमें एक रातसे अधिक नहीं रहना चाहिये; किन्तु यद्यपि चार घंटेने किसी एक ही स्थानपर रहकर ध्यान करने चाहिये। जबकि सुष्यका प्रकाश रहे तभीतक संन्यासीके लिये रातना चल्ना उचित है। वह कोड़ेकी तरह धीरे-धीरे समुची पृथ्वीपर विचरता रहे और पात्राके समय जौयोर दया करके पृथ्वीसे अन्नकी तरह वेद-भालकर आगे पाँव रखे। किसी प्रकारका संग्रह न करे और किसीके स्नेह-बन्धनमें बँधकर नहीं निवस्य न करे।

मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्यासीको उचित है कि सदा पवित्र जलसे काम ले। तुरंत निकाले हुए जलसे स्नान करे (बहुत पहलेके भरे हुएसे नहीं)। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, शोषका अभाव, दोष-वृष्टिका त्याग, इन्द्रियसंयम और चुगली न खाना—इन आठ धर्मोंका सावधानीके साथ पालन करे। इन्द्रियोंको बरामें रखे। उतका बर्ताव सदा पाप, शठता और कुटिलतासे रहित होना चाहिये। जो अन्न अपने आप प्राप्त हो जाय, उसको ग्रहण करना चाहिये; किन्तु उसके लिये भी मनमें इच्छा नहीं रखनी चाहिये। प्राण-प्राज्ञाका निर्वाह करनेके लिये जितना अन्न भाग्यपर है उतना ही ग्रहण करे। धर्मतः प्राप्त हुए अन्नका ही आहार करे। मनमाना भोजन न करे। खानेके लिये अन्न और शरीर ढकनेके लिये वस्त्रके सिवा और किसी वस्तुका संग्रह न करे। भिक्षा भी, जितनी एक समय भोजनके लिये आवश्यक हो जतनी ही ग्रहण करे; उससे अधिक नहीं। दूतरोंके लिये भिक्षा न माँगे। स्वयं भी किसीको न दे। बिना प्रार्थनाके किसीकी कोई वस्तु स्वीकार न करे। किसी अन्नकी वस्तुका उपयोग करके फिर उसके लिये सात्वायित न रहे। मिट्टी, जल, अन्न, पत्र, पुष्प और फल—ये वस्तुएँ यदि किसीके अधिकारमें न हों तो आश्रयशक्ता पृथ्वीपर संन्यासी इन्हें कापमें ला सकता है। वह शिल्पकारी करके जीविका न खाने, सुवर्णकी इच्छा न करे। न किसीसे द्वेष करे और न किसीको उपदेश दे। सदा निर्बिचार रहे। चढाते प्राप्त हुए पवित्र अन्नका आहार करे। मनमें कोई निमित्त न रखे। सबके साथ अमृतके समान मद्युर बर्ताव करे, वहाँ भी आश्रय न हो और किसी भी प्राणीके साथ परिचय न बढ़ावे। बापना और हिंसासे मुक्त धर्मका न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरोंके करावे। सब प्रकारके पदार्थोंका आस्तित्वा उत्सङ्गन करके पौढ़में संतुष्ट हो सब और विचरता रहे। स्वामी और अन्नम सभी प्राणियोंके प्रति समान भाव रखते, किसी दूसरे प्राणीको उद्देश्यमें न खाते और स्वयं भी किसीसे उद्दिग्ध न हो। जो सब प्राणियोंका विनाशपात्र बन जाना है, वह लक्ष्मण है।

और मोक्ष-धर्मका ज्ञाता कहलाता है। संन्यासीको उचित है कि भविष्यके लिये विचार न करे, बीती बातकी चिन्ता छोड़ दे और वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे। केवल कालकी प्रतीक्षा करता हुआ, चिन्तन-वृत्तियोंको रोकनेका प्रयत्न करे। नेत्रसे, मनसे और वाणीसे किसी वस्तुको दूषित न करे। सबके सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न करे। जैसे कछुवा अपने अङ्गुलियोंको सब ओरसे समेट लेता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटा ले। इन्द्रिय, मन और बुद्धिको दुर्बल करके निश्चेष्ट हो जाय। सम्पूर्ण तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करे। द्वन्द्वोंसे प्रभावित न हो, किसीके सामने माथा न टेके। स्वाहाकार (अग्निहोत्र आदि) का परित्याग करे। ममता और अहंकारसे रहित हो जाय, योगक्षेमकी चिन्ता न करे। मनपर विजय प्राप्त करे। जो निष्काम, निर्गुण, शान्त, अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण और तत्त्वका ज्ञाता होता है, वह निःसंदेह मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और उदर आदि अङ्गोंसे रहित, गुण-कर्मोंसे हीन, केवल, निर्मल, स्थिर, रूप-रस-गन्ध-स्पर्श और शब्दसे रहित, ज्ञेय, अनासक्त, मानसे हीन, निश्चिन्त, अविनाशी, दिव्य और सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित आत्माको

देखते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। उस आत्मतत्त्वक बुद्धि, इन्द्रिय और देवताओंकी भी पहुँच नहीं होती। वेद, यज्ञ, लोक, तप और व्रतका भी वहाँ प्रवेश नहीं होता। वहाँ केवल ज्ञानवान् महात्मा किसी प्रकारका बाह्य चिह्न धारण किये बिना ही जा सकते हैं। इसलिये बाह्य चिह्नोंसे रहित धर्मको जानकर उसका यथार्थरूपसे पालन करना चाहिये। विद्वान् पुरुषको उचित है कि वह विज्ञानके अनुरूप आचरण करे। मूढ़ न होकर भी मूढ़के समान बर्ताव करे; किंतु अपने किसी व्यवहारसे धर्मको कलङ्कित न करे। जिस कामके करनेसे समाजके दूसरे लोग अनादर करें, वैसा ही काम सदा करता रहे; किंतु सत्पुरुषोंके धर्मको निन्दा न करे। जो इस प्रकारका बर्ताव करते हुए धर्मका पालन करता है, वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। जो मनुष्य इन्द्रिय, उनके विषय, पञ्च-महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष—इन सबका विचार करके इनके तत्त्वका यथावत् निश्चय कर लेता है तथा एकान्तमें बैठकर परमात्माका ध्यान करता है, वह आकाशमें विचरनेवाले वायुकी भाँति सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छूटकर पञ्चकोशोंसे रहित, निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

परमात्माकी प्राप्तिके उपायोंका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो ! निश्चित बात कहनेवाले वृद्ध ब्राह्मण संन्यासको तप कहते हैं और ज्ञानको ही परब्रह्मका स्वरूप मानते हैं। वह ब्रह्म अज्ञानियोंसे अत्यन्त दूर, निर्द्वन्द्व, निर्गुण, नित्य, अचिन्त्य और श्रेष्ठ है। धीर पुरुष ज्ञान और तपस्याके द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। जिनके मनकी मूल धूल गयी है, जो परम पवित्र हैं, जिन्होंने रजोगुणकों त्याग दिया है, जिनका अन्तःकरण निर्मल है, जो संन्यासपरायण तथा ब्रह्मके ज्ञाता हैं, वे तपस्याके द्वारा कल्याण-मय पथका आश्रय लेते हैं—परमेश्वरको प्राप्त होते हैं। ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि तपस्या (परमात्मतत्त्वको प्रकाशित करनेवाला) दीपक है, आचार धर्मका साधक है, ज्ञान परब्रह्म का स्वरूप है और संन्यास ही उत्तम तप है। जो तत्त्वका पूर्ण निश्चय करके सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाले आत्माको जान लेता है, वह सर्वत्र विचरनेवाला एवं सर्वज्ञ हो जाता है। जो किसी वस्तुको कामना तथा किसीकी अवहेलना नहीं करता, वह इस लोकमें रहकर भी ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त हो जाता है। जो सब भूतोंमें प्रधान—प्रकृतिको तथा उसके गुण एवं तत्त्वको भलीभाँति

जानकर ममता और अहंकारसे रहित हो जाता है, उसके मुक्त होनेमें तनिक भी संदेह नहीं है। शुभ और अशुभ समस्त त्रिगुणात्मक कर्मोंका तथा सत्य और असत्यका भी त्याग करनेसे जीवको अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। यह देह एक वृक्षके समान है। अज्ञान इसका मूल अङ्कुर (जड़) है, बुद्धि स्कन्ध (तना), अहंकार शाखा है, इन्द्रियाँ खोलले हैं और पञ्चमहाभूत इसके विशाल अवयव हैं, जो वृक्षकी शोभा बढ़ाते हैं। इसमें सदा ही संकल्परूपी पत्ते उगते और कर्मरूपी फूल खिलते रहते हैं। शुभाशुभ कर्मोंसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही इसमें सदा लगे रहनेवाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाला यह देहरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। बुद्धिमान् पुरुष तत्त्वज्ञानरूपी खड्गसे इस वृक्षको काटकर जब जन्म-मृत्यु और जरावस्थाके चक्रकर्ममें डालनेवाले आसक्तिरूप बन्धनोंको तोड़ डालता है तथा ममता और अहंकारसे रहित हो जाता है, उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है।

जो मनुष्य अन्तकालमें आत्माका ध्यान करके, साँस लेनेमें जितनी देर लगती है उतनी देर भी, समभावमें स्थित

होता है, वह अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्त करनेका अधिकारी हो जाता है। जो एक निमेष भी अपने मनको आत्मामें एकाग्र कर लेता है, वह अन्तःकरणको प्रसन्नताको पाकर विद्वानोंकी प्राप्त होनेवाली अक्षय गतिको पा जाता है। प्राणायामके द्वारा पुनः-पुनः प्राणोंका संयम करनेवाला पुरुषभी परमात्माको प्राप्त होता है। इस प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर लेता है, वह जो-जो चाहता है उसी-उसी वस्तुको पा जाता है। सत्त्व (चित्तशुद्धि) के महत्त्वको जाननेवाले

विद्वान् इस जगत्में सबको बड़कर और किसी वस्तुको प्रार्थना नहीं करते। द्विजवरो! हृद्य अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस बातको अच्छी तरह जानते हैं कि अन्तर्धीमी परमात्मा सत्त्वमें ही स्थित है। सत्त्वके सिवा दूसरे किसी मांगमें उनके पास पहुँचना असम्भव है। दामा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरसता, शान्ति, स्वयं (दान) तथा संन्यास—ये सात्विक वर्तारोंके अन्तर्गत माने गये हैं (इनमें भी परमात्माकी प्राप्ति होती है)।

सत्त्व और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमान्की प्रशंसा, पञ्चभूतोंके गुण और आत्माकी श्रेष्ठताका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो! जो लोग प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, नास्तिक-वृत्तिका आशय लेते हैं और लोभ तथा मोहमें कंसे हुए हैं, उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है। जो विद्वान् आलस्य छोड़कर श्रद्धाके साथ वेदोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं और उनके कर्तव्यमें आसक्त नहीं होते, वे धीर और उत्तम दृष्टिवाले माने गये हैं।

अब मैं यह बता रहा हूँ कि सत्त्व और क्षेत्रज्ञका परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता है? इस विषयको ध्यान देकर सुनो—इन दोनोंमें विषय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया है। इनमें पुरुष तो विषयो है और सत्त्व विषय। मनोयी पुरुष सत्त्वको द्रव्ययुक्त ब्रह्मत्वाते है और क्षेत्रज्ञ निर्द्रव्य, निष्कल, निष्प और निर्गुण है। जैसे कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी छत्रबल बूँद उसे मिगो नहीं पाती, उसी प्रकार विद्वान् पुरुष सत्त्वत मुक्तसे सम्बन्ध रखते हुए भी किसीसे निपट नहीं होता। अतः क्षेत्रज्ञ पुरुष असङ्ग है, इसमें तनिक भी संवेह नहीं है।

जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है उसे हजार उपाय करनेपर भी शान नहीं होता और जो बुद्धिमान् है वह चौपाई प्रमाणसे भी शान पाकर सुखका अनुभव करता है। ऐसा विचारकर किसी उपायसे धर्मके साधनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि उपायको जाननेवाला मेधाधी पुरुष अत्यन्त सुखका भागी होता है। जैसे कोई मनुष्य यदि राहलकका प्रयत्न किये बिना ही यात्रा करता है तो उसे मांगमें बहुत क्लेश उठाना पड़ता है और वह बीचहीमें मर भी जाता है। यही बात कर्मके सम्बन्धमें जाननी चाहिये (अर्थात् शुभ कर्मकी प्राप्यके बिना परलोकका मार्ग सुखपूर्वक नहीं तै किया जा सकता)। जैसे बिना देले हुए बुरके रास्तेपर पैदल चलने-

वाला मनुष्य गन्तव्य स्थानपर जल्दी नहीं पहुँच पाता, परी बया सत्त्वज्ञानसे रहित अज्ञानी पुरुषकी होती है। चित्त उसी मांगपर छोड़े भूते हुए शोभ्रगामी रथके द्वारा यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र हो अपने सत्य स्थानपर पहुँच जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषोंकी गति होती है। बुद्धिमान् मनुष्य जहाँतक रथ जानेवाला भाग है वहाँतक रथमें जाता है और जब रथका रास्ता समान हो जाता है तब वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता है; इसी प्रकार सत्त्व और योग-विधिको जाननेवाला बुद्धिमान् एवं शुचि पुरुष अच्छी तरह सत्य-धर्मकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है। जैसे कोई पुरुष यदि मोहकषा बिना नाथके ही मध्वरक सत्यमें प्रवेश करता है और दोनों भुजाओंसे ही तैरकर उसके पार होनेका प्रतीक्षा रखता है तो निश्चय ही वह अपनी मीत क्षमता चाहता है (उसी प्रकार ज्ञान-नीचाका सहारा लिये बिना मनुष्य भवसागरसे पार नहीं हो सकता)। जिस तरह बुद्धिमान् पुरुष नाथकी सहायतासे अनायास ही पारमें प्रविष्ट हो जाता और शीघ्र ही तैरकर फिर उससे बाहर निकल जाता है तथा पार हो जानेपर नाथकी ममता छोड़कर चल देता है (उसी प्रकार संसार-सागरसे पार हो जानेपर बुद्धिमान् पुरुष पहलेके साधनोंकी ममता छोड़ देता है); परंतु स्नेहका मोहको प्राप्त हुआ मनुष्य ममतासे आवड होकर नाथपर सदा बँडे रहनेवाले मल्लाहकी भाँति बही बचकर काटता रहता है।

जो गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्दसे रहित है तथा बुद्धि-सोम बुद्धिके द्वारा जिसका मनन करते हैं, वह प्रधान ब्रह्मत्वात् है; उसका दूसरा नाम अद्वयत्व है। अद्वयत्व का अर्थ अद्वयत्व और बहुतरत्वका अर्थ अहंकार है। अहंकारसे पञ्च भूत-भूतोंकी प्रकृत करनेवाले गुरुरी उत्पत्ति है—१। पञ्च

महाभूतोंके कार्य हैं रूप, रस आदि विषय। वे पृथक्-पृथक् गुणोंके नामसे प्रसिद्ध हैं; अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा भी है और कार्यरूपा भी। इसी प्रकार महत्त्वके भी कारण और कार्य दोनों ही स्वरूप सुने गये हैं। अहंकार भी कारणरूप तो है ही, कार्यरूपमें भी बारंबार परिणत होता रहता है। पञ्च महाभूतोंमें भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों धर्म हैं। उन भूतोंके विशेष कार्य शब्द आदि विषय भी बीजधर्मों (कारण) कहलाते हैं, साथ ही वे कार्यरूपमें भी उपस्थित होते हैं। पञ्च महाभूतोंमेंसे आकाशमें एक ही गुण माना गया है। वायुके दो गुण बतलाये जाते हैं। तेज तीन गुणोंसे युक्त कहा गया है। जलके चार गुण हैं और पृथ्वीके पाँच गुण समझने चाहिये। वह स्थावर-जङ्गम प्राणियोंसे भरी हुई, समस्त जीवोंको जन्म देनेवाली तथा शुभ और अशुभका निर्देश करनेवाली है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये ही पृथ्वीके पाँच गुण हैं। इनमें भी गन्ध उसका खास गुण है। गन्ध अनेकों प्रकारकी होती है, मैं उसके गुणोंका विस्तारके साथ वर्णन करूँगा। इष्ट (सुगन्ध), अनिष्ट (दुर्गन्ध), मधुर, अम्ल, कटु, निर्हारी (द्वरतक फलनेवाली), मिश्रित, स्निग्ध, रूक्ष और विशद—ये पार्थिव गन्धके आठ भेद समझने चाहिये। शब्द, स्पर्श, रूप और रस—ये जलके चार गुण माने गये हैं (इनमें रस ही जलका मुख्य गुण है)। अब मैं रस-विज्ञानका वर्णन करता हूँ। रसके बहुत-से भेद हैं—

मीठा, खट्टा, कड़ुआ, तीता, कसैला और नमकीन। इस प्रकार छः भेदोंमें जलमय रसका विस्तार बताया गया है। शब्द, स्पर्श और रूप—ये तेजके तीन गुण हैं। इनमें रूप ही तेजका मुख्य गुण है। रूपके भी कई भेद हैं—शुक्ल, कृष्ण, रक्त, नील, पीत, अरुण, छोटा, बड़ा, मोटा, बुबला, चौकोना और गोल। इस तरह तँजस रूपका बारह प्रकारसे विस्तार देखा जाता है। शब्द और स्पर्श—ये वायुके दो गुण हैं। इनमें भी स्पर्श ही वायुका प्रधान गुण है। स्पर्श भी कई प्रकारका माना गया है—रूखा, ठंडा, गरम, स्निग्ध, विशद, कठिन, चिकना, श्लक्ष्ण (हल्का), पिच्छिल, कठोर और कोमल। इन बारह प्रकारोंसे वायुके गुण स्पर्शका विस्तार बतलाया गया है। आकाशका एक ही गुण शब्द है। शब्दके बहुत-से गुण हैं। उनका विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ—षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, निषाद, धैवत, इष्ट (प्रिय), अनिष्ट (अप्रिय) और संहत (श्लिष्ट)—ये आकाशजनित शब्दके दस भेद हैं। आकाश सब भूतोंमें श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ अहंकार, अहंकारसे श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा (महत्त्व), उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है। जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंके भूत भविष्यका ज्ञाता, समस्त कर्मोंकी विधिका जानकार और सब प्राणियोंको आत्मभावसे देखनेवाला है, वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त होता है।

तपस्याका प्रभाव, आत्माका स्वरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो! जैसे सारथि अच्छे घोड़ोंको अपने कावूमें रखता है, उसी प्रकार मन सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर शासन करता है। इन्द्रिय, मन और बुद्धि—ये सदा क्षेत्रज्ञके साथ संयुक्त रहते हैं। जिसमें इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए हैं, जिसका बुद्धिरूपी सारथिके द्वारा नियन्त्रण हो रहा है, उस वेहरूपी रथपर सवार होकर वह भूतात्मा (क्षेत्रज्ञ) चारों ओर दौड़ लगाता रहता है। ब्रह्ममय रथ सदा रहनेवाला और महान् है, इन्द्रियाँ उसके घोड़े, मन सारथि और बुद्धि चाबुक है। जो विद्वान् इस ब्रह्ममय रथकी सदा जानकारी रखता है, वह समस्त प्राणियोंमें धीर है और कभी मोहमें नहीं पड़ता। विश्वकी सृष्टि करनेवाले मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्रकी लहरोंके समान बारंबार पञ्चभूतोंसे उत्पन्न होते और फिर समयानुसार जहाँमें लीन हो जाते हैं। प्रजापतिने अपने तपःशक्तिसम्पन्न मनके ही द्वारा सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्यासे ही देवत्वको

प्राप्त हुए हैं। फल-मूलका भोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा तपस्याके प्रभावसे ही चित्तको एकाग्र करके तीनों लोकोंकी बातें प्रत्यक्ष देखते हैं। आरोग्यकी साधनभूत ओषधियाँ और नाना प्रकारकी विद्याएँ तपसे ही सिद्ध होती हैं। सारे साधनोंकी जड़ तपस्या ही है। जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दवाना और जिसकी संगति लगाना नितान्त कठिन है, वह सब तपस्याके द्वारा साध्य हो जाता है; क्योंकि तपका प्रभाव दुर्लभ है। शराबी, ब्रह्महत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करनेवाला और गुरुपत्नीकी शय्यापर सोनेवाला महापापी भी भलीभाँति तपस्या करके ही उस महान् पापसे छुटकारा पा सकता है। मनुष्य, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब सदा तपस्यामें संलग्न होकर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। तपस्याके बलसे ही महा-मायावी देवता स्वर्गमें निवास करते हैं।

जो लोग आलस्य त्यागकर अहंकारसे युक्त हो सका

कर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापतिके लोकमें जाते हैं। जो ध्यानयोगका आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, वे आत्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ पुरुष सुखकी राशिमूल अव्यक्त परमात्मामें प्रवेश करते हैं, किंतु जो ध्यानयोगसे पीछे लौटकर अर्थात् ध्यानमें असफल होकर ममता और अहंकारसे रहित जीवन व्यतीत करता है, वह अव्यक्त प्रकृतिमें सौत होता है। फिर स्वयं भी अव्यक्त-संज्ञाको प्राप्त होकर अव्यक्तसे ही प्रकट होता है और केवल सत्वका आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुणके बन्धनसे छूटकारा पा जाता है। जो सब पापोंसे मुक्त रहकर सबकी सृष्टि करता है, उसे अक्षय ब्रह्म एवं क्षेत्रत समझना चाहिये। जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही वेदवेत्ता है। मुनिको उचित है कि चिन्तनके द्वारा चेतना (सम्पत्कान) पाकर मन और इन्द्रियोंको एकत्र करके परमात्माके ध्यानमें स्थित हो जाय; क्योंकि जिसका चित्त जिसमें लगा होता है, वह निश्चय ही उसका स्वरूप हो जाता है—यह सनातन गोपनीय रहस्य है।

दो अक्षरका पद 'मम' (यह मेरा है—ऐसा भाव) मूर्खरूप है और तीन अक्षरका पद 'न मम' (यह मेरा नहीं है—ऐसा भाव) सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला है। कुछ भन्दबुद्धि मनुष्य (स्वर्गादि फल प्रदान करनेवाले) काम्य कर्मोंकी प्रशंसा करते हैं, किंतु युद्ध महात्माजन उन्हें उत्तम नहीं बतलाते; क्योंकि सफासफा कर्मके अनुष्ठानसे जीवको सोलह विकारोंसे निमित्त स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा अविद्याका घास बना रहता है। इतना ही नहीं, कर्मठ पुरुष देवताओंके भी उपमोगका विषय होता है। इसलिये पारदर्शी विद्वान् कर्मोंमें आसक्त नहीं होते; क्योंकि यह पुरुष (आत्मा) ज्ञानमय है, कर्ममय नहीं। जो इस प्रकार आत्माको अमृतस्वरूप, नित्य, इन्द्रियातीत, सनातन, अक्षर, जितात्मा एवं असङ्ग समझता है, वह कर्म मूर्खके बन्धनमें नहीं पड़ता। जिसकी दृष्टिमें आत्मा अपूर्व (अनादि), अकृत (अजन्मा), नित्य, कूटस्थ, अप्राह्ण (अनाश्रि), अकृत (अजन्मा), नित्य, कूटस्थ, अप्राह्ण और अमृताशी है, वह इन गुणोंका चिन्तन करनेसे स्वयं भी अप्राह्ण (इन्द्रियातीत) एवं अमृतस्वरूप हो जाता है। जो चित्तकी शुद्ध करनेवाले (मंत्री-रक्षण आदि) सम्पूर्ण

संस्कारोंका सम्पादन करके मनको आत्माके ध्यानमें लगा देता है, वही उस कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त करता है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। आर्गनियन्ट ओबेन्सूत महात्माओंकी यही परम गति है, यही विरक्त पुरुषोंकी गति है, यही सनातन धर्म है और यही शान्तियोंका प्राप्त्यम् स्थापन है। जो सम्पूर्ण भूतोंमें समान भाव रखता है, सोम और कामनासे रहित है तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है, वह शान्ति पुरुष भी इस गतिको प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मर्षियो! यह सब विषय मैंने विस्तारके साथ तुमसोपोंको बताया दिया, इसीके अनुसार आचरण करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी।

गुरुने कहा—बेदा। ब्रह्मर्षीके इस प्रकार उपदेश देनेपर उन महात्मा मूर्तिपति इसीके अनुसार आचरण किया। इससे उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति हुई। महाभाग। तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिये तुम भी मेरे बताये हुए ब्रह्मर्षीके उत्तम उपदेशका पालन करो। इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी।

श्रीकृष्णने कहा—अर्जुन। गुरुदेवके ऐसा बहनेपर उस शिष्यने समस्त उत्तम धर्मोंका पालन किया। इससे वह संसार-बन्धनसे मुक्त एवं कृताप हो गया। उसने वह पद प्राप्त किया जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता।

अर्जुनने पूछा—जनाबन। ये ब्रह्मनियन्ट गुरु और शिष्य कौन थे? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये।

श्रीकृष्णने कहा—महाबाहो। मैं ही गुरु हूँ और मेरे मनको ही शिष्य समझो। तुम्हारे स्नेहका मैंने इस गोपनीय रहस्यका वचन किया है। यदि मूर्खपर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अप्यारमदानको सुनकर इसका यथावत् पालन करो। अच्छा, अब मैं पितामीका बर्तन करना चाहता हूँ। उन्हें देते बहुत दिन हो गये। यदि तुम्हारी राय हो तो मैं उनके बर्तनके लिये द्वारका जाऊँ।

यशस्व्यायनजी कहते हैं—राजन्। मगवान् भीष्मकी बात सुनकर अर्जुनने कहा—'अब हमसोप यहाँसे हस्तिनापुरकी चलें। वहाँ धर्मरथ राजा युधिष्ठिरसे मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पुत्रीको प्यारें।'

महाभूतोंके कार्य हैं रूप, रस आदि विषय। वे पृथक्-पृथक् गुणोंके नामसे प्रसिद्ध हैं; अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा भी है और कार्यरूपा भी। इसी प्रकार महत्त्वके भी कारण और कार्य दोनों ही स्वरूप सुने गये हैं। अहंकार भी कारणरूप तो है ही, कार्यरूपमें भी बारंबार परिणत होता रहता है। पञ्च महाभूतोंमें भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों धर्म हैं। उन भूतोंके विशेष कार्य शब्द आदि विषय भी बीजधर्मों (कारण) कहलाते हैं, साथ ही वे कार्यरूपमें भी उपस्थित होते हैं। पञ्च महाभूतोंमेंसे आकाशमें एक ही गुण माना गया है। वायुके दो गुण बतलाये जाते हैं। तेज तीन गुणोंसे युक्त कहा गया है। जलके चार गुण हैं। और पृथ्वीके पाँच गुण समझने चाहिये। वह स्थावर-जङ्गम प्राणियोंसे भरी हुई, समस्त जीवोंके जन्म देनेवाली तथा शुभ और अशुभका निर्देश करनेवाली है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये ही पृथ्वीके पाँच गुण हैं। इनमें भी गन्ध उसका खास गुण है। गन्ध अनेकों प्रकारकी होती है, मैं उसके गुणोंका विस्तारके साथ वर्णन करूँगा। इष्ट (सुगन्ध), अनिष्ट (दुर्गन्ध), मधुर, अम्ल, कटु, निर्हारी (द्वरतक फलनेवाली), मिश्रित, स्निग्ध, रूक्ष और विशद—ये पार्थिव गन्धके आठ भेद समझने चाहिये। शब्द, स्पर्श, रूप और रस—ये जलके चार गुण माने गये हैं (इनमें रस ही जलका मुख्य गुण है)। अब मैं रस-विज्ञानका वर्णन करता हूँ। रसके बहुत-से भेद हैं—

मीठा, खट्टा, कड़ुआ, तीता, कसैला और नमकीन। इस प्रकार छः भेदोंमें जलमय रसका विस्तार बताया गया है। शब्द, स्पर्श और रूप—ये तेजके तीन गुण हैं। इनमें रूप ही तेजका मुख्य गुण है। रूपके भी कई भेद हैं—शुक्ल, कृष्ण, रक्त, नील, पीत, अरुण, छोटा, बड़ा, मोटा, बुबला, चौकोना और गोल। इस तरह तेजस रूपका बारह प्रकारसे विस्तार देखा जाता है। शब्द और स्पर्श—ये वायुके दो गुण हैं। इनमें भी स्पर्श ही वायुका प्रधान गुण है। स्पर्श भी कई प्रकारका माना गया है—रूखा, ठंडा, गरम, स्निग्ध, विशद, कठिन, चिकना, श्लक्ष्ण (हल्का), पिच्छिल, कठोर और कोमल। इन बारह प्रकारोंसे वायुके गुण स्पर्शका विस्तार बतलाया गया है। आकाशका एक ही गुण शब्द है। शब्दके बहुत-से गुण हैं। उनका विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ—षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, निषाद, ध्रुवत, इष्ट (प्रिय), अनिष्ट (अप्रिय) और संहत (श्लिष्ट)—ये आकाशजनित शब्दके दस भेद हैं। आकाश सब भूतोंमें श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ अहंकार, अहंकारसे श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा (महत्त्व), उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है। जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंके भूत भविष्यका ज्ञाता, समस्त कर्मोंकी विधिका जानकार और सब प्राणियोंको आत्मभावसे देखनेवाला है, वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त होता है।

तपस्याका प्रभाव, आत्माका स्वरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो ! जैसे सारथि अच्छे घोड़ोंको अपने कावूमें रखता है, उसी प्रकार मन सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर शासन करता है। इन्द्रिय, मन और बुद्धि—ये सदा क्षेत्रज्ञके साथ संयुक्त रहते हैं। जिसमें इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए हैं, जिसका बुद्धिरूपी सारथिके द्वारा नियन्त्रण हो रहा है, उस देहरूपी रथपर सवार होकर वह भूतात्मा (क्षेत्रज्ञ) चारों ओर दौड़ लगाता रहता है। ब्रह्ममय रथ सदा रहनेवाला और महान् है, इन्द्रियाँ उसके घोड़े, मन सारथि और बुद्धि चाबुक है। जो विद्वान् इस ब्रह्ममय रथकी सदा जानकारी रखता है, वह समस्त प्राणियोंमें धीर है और कभी मोहमें नहीं पड़ता। विश्वकी सृष्टि करनेवाले मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्रकी लहरोंके समान बारंबार पञ्चभूतोंसे उत्पन्न होते और फिर समयानुसार उन्हींमें लीन हो जाते हैं। प्रजापतिने अपने तपःशक्तिसम्पन्न मनके ही द्वारा सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्यासे ही देवत्वकी

प्राप्त हुए हैं। फल-मूलका भोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा तपस्याके प्रभावसे ही चित्तको एकाग्र करके तीनों लोकोंकी बातें प्रत्यक्ष देखते हैं। आरोग्यकी साधनभूत ओषधियाँ और नाना प्रकारकी विद्याएँ तपसे ही सिद्ध होती हैं। सारे साधनोंकी जड़ तपस्या ही है। जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना और जिसकी संगति लगाना नितान्त कठिन है, वह सब तपस्याके द्वारा साध्य हो जाता है; क्योंकि तपका प्रभाव दुर्लभ है। शराबी, ब्रह्महत्याारा, चोर, गर्भ नष्ट करनेवाला और गुरुपत्नीकी शय्यापर सोनेवाला महापापी भी भलीभाँति तपस्या करके ही उस महान् पापसे छुटकारा पा सकता है। मनुष्य, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब सदा तपस्यामें संलग्न होकर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। तपस्याके बलसे ही महा-मायावी देवता स्वर्गमें निवास करते हैं।

जो लोग आलस्य त्यागकर अहंकारसे युक्त हो सकाम

कर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापतिके लोकमें जाते हैं। जो ध्यानयोगका आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, वे आत्मवेदाओंमें श्रेष्ठ पुरुष सुखकी राशिभूत अत्यन्त परमात्मामें प्रवेश करते हैं, किंतु जो ध्यानयोगसे पीछे लौटकर अर्थात् ध्यानमें असफल होकर ममता और अहंकारसे रहित जीवन व्यतीत करता है, वह अत्यन्त प्रकृतिमें लीन होता है। फिर स्वयं भी अत्यन्त-संज्ञाको प्राप्त होकर अत्यन्तसे ही प्रकट होता है और केवल सत्त्वका आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुणके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है। जो सब पापोंसे मुक्त रहकर सबको सृष्टि करता है, उसे मल्लभ ब्रह्म एवं क्षेत्रज्ञ समझना चाहिये। जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही वेदवेत्ता है। मूलिको उचित है कि चिन्तनके द्वारा चेतना (सम्प्यज्ञान) भाकर मन और इन्द्रियोंकी एकाग्र करके परमात्माके ध्यानमें स्थित हो जाय; क्योंकि जिसका चित्त जिसमें लगा होता है, वह निश्चय ही उसका स्वरूप हो जाता है—यह सनातन गोपनीय रहस्य है।

बो अक्षरका पद 'मम' (मह मेरा है—ऐसा भाव) मृत्युषु है और तीन अक्षरका पद 'न मम' (वह मेरा नहीं है—ऐसा भाव) सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला है। कुछ मन्दबुद्धि मनुष्य (स्वर्गादि फल प्रदान करनेवाले) काश्य कर्मोंकी प्रशंसा करते हैं, किंतु बुद्ध महात्मानज उन्हीं उत्तम नहीं बतलाते; क्योंकि सकाम कर्मके अनुष्ठानसे जीवको सोलह विकारोंसे निमित्त स्वूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा अधिद्याका प्राप्त बना रहता है। इतना ही नहीं, कर्मठ पुरुष वेदताओंके भी उपयोगका विषय होता है। इसलिये पारदर्शी विद्वान् कर्ममें आशक्त नहीं होते; क्योंकि यह पुरुष (आत्मा) ज्ञानमय है, कर्ममय नहीं। जो इस प्रकार आत्माको अमृतस्वरूप, नित्य, इन्द्रियातीत, सनातन, अक्षर, जितात्मा एवं असङ्ग समझता है, वह कभी मृत्युके घटनमें नहीं पड़ता। जिसकी बुद्धिमें आत्मा अपूर्व (अनादि), अकृत (अजन्मा), नित्य, कूटस्थ, अप्राह्य (अमृता) है, वह इन गुणोंका चिन्तन करनेसे स्वयं भी अप्राह्य (इन्द्रियातीत) एवं अमृतस्वरूप हो जाता है। जो चित्तको शुद्ध करनेवाले (मंत्रो-कथना आदि) सम्पूर्ण

संस्कारोंका सम्प्रादन करके मनको आत्माके ध्यानमें लगा देता है, वही उस कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त करता है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति है, यही विरक्त पुरुषोंकी गति है, यही सनातन धर्म है और यही ज्ञानियोंका प्राप्तव्य स्थान है। जो सम्पूर्ण भूतोंमें समान भाव रखता है, लीन और कायनासे रहित है तथा जिसकी सर्वत्र संपान बुद्धि रहती है, वह ज्ञानी पुरुष भी इस गतिको प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मयिदो ! यह सब विषय मेरे विस्तारके साथ तुमसोपोंको बता दिया, इसीके अनुसार आचरण करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी।

गुदने कहा—बेटा ! ब्रह्माजीके इस प्रकार उपदेश देनेपर उन महात्मा मूनिमें इसीके अनुसार आचरण किया। इससे उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति हुई। महाभाग ! तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिये तुम भी मेरे बताये हुए ब्रह्माजीके उत्तम उपदेशका पालन करो। इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी।

श्रीकृष्णने कहा—अर्जुन ! गुदेवके ऐसा बहनेपर उस शिष्यने समस्त उत्तम धर्मोंका पालन किया। इससे वह संतार-बन्धनसे मुक्त एवं कृतांग हो गया। उसने वह पर प्राप्त किया जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता।

अर्जुनने पूछा—जनार्दन ! वे ब्रह्मनिष्ठ गुद और शिष्य कौन थे ? यदि मेरे मुदने योग्य हो तो ठीक-ठीक बतानेको कृपा कीजिये।

श्रीकृष्णने कहा—महाबाहो ! मैं ही गुद हूँ और मेरे मनकी ही शिष्य समझे। तुम्हारे स्नेहका मेरे इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है। यदि ममपुर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मदानको मुनकर इसका यथावत् पालन करो। अच्छा, अब मैं श्रुताओंका बर्णन करना चाहता हूँ। उन्हीं देवों बहुत दिनों हो गये। यदि तुम्हारी राय हो तो मैं उनके बर्णनके लिये द्वारका जाऊँ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! भगवान् श्रीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुनने कहा—'अब हमसोय यहाँसे हस्तिनापुरको चलें। यहाँ धर्मिया राजा युधिष्ठिरसे मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पुरीको चधारें।'

श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिरकी आज्ञा ले सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्थान करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर, भगवान् श्रीकृष्णने दारुको रथ जोतनेकी आज्ञा दी। दारुने थोड़ी ही देरमें लौटकर सूचना दी कि रथ जोतकर तैयार है। इसी प्रकार अर्जुनने भी अपने अनुचरोंको आदेश दिया 'सब लोग तैयार हो जाओ, हस्तिनापुरकी यात्रा करनी है।' आज्ञा पाते ही सम्पूर्ण सैनिक तैयार हो गये और महान् तेजस्वी अर्जुनके पास जाकर बोले—'यात्राका सारा प्रबन्ध हो गया है (अब चलना चाहिये)।'

तत्पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन रथपर सवार हुए और प्रसन्नताके साथ तरह-तरहकी बातें करते हुए हस्तिनापुरकी ओर चल दिये। उस समय अर्जुनने रथपर बैठे हुए श्रीकृष्णसे पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया—'मधुसूदन ! महाराज युधिष्ठिरने आपहीकी कृपासे विजय पायी, शत्रुओंका वध किया और अकण्ठक राज्य प्राप्त किया है। हम सभी पाण्डव आपसे सनाय हैं। आपको ही नौका-रूपमें पाकर हमलोग कौरव-सेनारूपी समुद्रके पार पहुँचे हैं। विश्वकर्मान् ! आप ही इस जगत्के आत्मा और संसारमें सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको उसी तरह जानता हूँ जिस तरह आप मुझे जानते हैं। भगवन् ! आपके ही तेजसे सदा सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति होती है। नाना प्रकारकी लीलाएँ आपकी रति (मनोविनोद) हैं। आकाश और पृथ्वी आपकी माया है। आपहीमें वह समस्त चराचर जगत् प्रतिष्ठित है। (अण्डज, पिण्डज, त्वेदज और उद्भिज्ज—इन) चार प्रकारके प्राणियों तथा पृथ्वी और आकाशको आप ही उत्पन्न करते हैं। निर्मल चाँदनीमें आपके ही हास्यकी छटाका दर्शन होता है। ऋतुएँ आपकी इन्द्रियों और सदा प्रवाहित होनेवाली वायु आपके प्राण हैं। आपका क्रोध ही सनातन मृत्युके रूपमें प्रकट है। आपकी प्रसन्नतामें भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं। महान्ते ! आपमें रति, लुप्ति, धृति, क्षान्ति, मति और क्रान्ति आदि गुणोंका तथा चराचर प्राणियोंका नित्य निवास माना गया है। प्रलयकालमें आप ही मृत्युके नामसे पुकारे जाते हैं। मैं सुदीर्घ कालतक आपके गुणोंका वर्णन करता रहूँ तो भी उनका पार नहीं पा सकता। कमलनयन ! आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजेय परमेश्वर ! मैंने देवाधि नारद, देवल, श्रीकृष्ण-ईपायन तथा पितामह भीष्मके मुखसे आपके माहात्म्यका ज्ञान प्राप्त किया है। सारा जगत् आपमें ही जोतप्रोत है।

आप ही मनुष्योंके एकमात्र अधीश्वर हैं। जनादेन ! आपने मुझपर कृपा करके जो यह उपदेश दिया है, उसका मैं यथावत् पालन करूँगा। हमलोंगोंका प्रिय करनेके लिये आपने यह बड़ा अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्रके पुत्र महापार्थी दुर्योधनको युद्धमें मार डाला। कौरवोंकी सेनाको आपने ही अपने तेजसे भस्म कर दिया था, तभी मैं युद्धमें विजय प्राप्त कर सका हूँ। आपहीने ऐसे-ऐसे उपाय किये हैं, जिनसे मेरे लिये विजय सुलभ हो गयी है। दुर्योधनके साथ जब संग्राम छिड़ा था, उस समय आपहीकी वृद्धि और आपहीके दिये हुए पराक्रमसे हमलोगोंको जीत हुई थी। कर्ण, पापी जयद्रथ और भूरिश्रवाके वधका ठीक-ठीक उपाय आपहीने बतलाया था; अतः देवकीनन्दन ! आपने प्रेमवश मुझे जो-जो उपदेश दिया है, वह सब मैं आचरणमें लाऊँगा। इसमें मुझे कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप द्वारका जाना चाहते हैं तो जाइये, इसमें मेरी भी सम्मति है। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर मैं भी उनसे आपको जानेकी आज्ञा दिलानेका प्रयत्न करूँगा। अब शीघ्र ही आप मामाजीका दर्शन करेंगे और अजेय वीर बलभद्रजी तथा अन्य वृष्णिवंशी वीरोंसे मिल सकेंगे।'

इस प्रकार बातचीत करते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों हस्तिनापुरमें जा पहुँचे। इनके नगरमें प्रवेश करते ही वहाँके नर-नारी निहाल हो गये। फिर इन्द्रभवनके समान शोभाशाली राजमहलमें जाकर वे दोनों मित्र क्रमशः महाराज धृतराष्ट्र, अत्यन्त वृद्धिमान् विदुरजी, राजा युधिष्ठिर, दुर्घर्ष वीर भीमसेन, माद्रीनन्दन नकुल-सहदेव, धृतराष्ट्रकी सेवामें लगे रहनेवाले अपराजित वीर युयुत्सु, वृद्धिमती गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंशकी सभी स्त्रियोंसे मिले। सबसे पहले राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँचकर महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुनने अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया। उसके बाद गान्धारी, कुन्ती, युधिष्ठिर और भीमसेनके पैर छूए। फिर विदुरजीसे मिलकर कुशल-मङ्गल पूछा। फिर उन सबके साथ कुछ देरतक वे वृद्ध राजा धृतराष्ट्रकी सेवामें बैठे रहे। तदनन्तर, रातके समय वृद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रने कौरवों और भगवान् श्रीकृष्णको अपने-अपने स्थानपर जानेकी आज्ञा दी। राजाकी आज्ञा पाकर सब अपने-अपने महलमें लौट आये। महापराक्रमी भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनके साथ उन्हींके महलमें गये।

यहाँ उनका विधिधर्म आदर-सत्कार हुआ और वे इच्छानुसार भोजन आदिसे निवृत्त होकर अर्जुनके साथ सो रहे। जब रात बीत गयी तो प्रातःकाल पूर्वाह्नको किया—संध्यावन्दन आदि करके वे दोनों धर्मराज युधिष्ठिरके महलमें गये, जहाँ वे अपने मन्त्रियोंके साथ रहते थे। उस सुन्दर भवनमें प्रवेश करके उन दोनों महात्माओंने धर्मराजका दर्शन किया। उनके आगमनसे महाराज युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उनके आज्ञा देनेपर वे दोनों मित्र उत्तम आसनोंपर विराजमान हुए। राजा युधिष्ठिरको बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने देखते ही ताड़ लिया कि ये दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अतः वे इस प्रकार बोले—'बीरवरो! मालूम होता है तुमलोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जो भी कहना हो कहो। मैं वह सब शीघ्र ही पूर्ण कहूँगा। तुम मनमें कुछ अन्यथा विचार न करो।'

यह सुनकर बात-चीत करनेमें परम चतुर अर्जुनने धर्मराजके पास जाकर बड़े विनीतभावसे कहा—'राजन्! महाप्रतापी भगवान् श्रीकृष्णको यहाँ रहते बहुत दिन हो गये। अब वे आपकी आज्ञा लेकर अपने पितृजीका दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करें और हर्षपूर्वक आज्ञा दें, तभी वे द्वारकापुरीको जायेंगे। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें जानेकी आज्ञा दें।'

युधिष्ठिरने कहा—'पधुसूदन! आपका कल्याण हो। आप शूरनन्दन वसुदेवजीका दर्शन करनेके लिये आज ही द्वारकाको जाइये। महाबाहो! आपकी इस यात्रामें मेरी पूरी सम्मति है। आपने मेरे मामाजी और देवकीदेवीको बहुत दिनोंसे नहीं देखा है; अतः यहाँ जाकर उन सबसे मिलिये तथा मेरी ओरसे मामाजीको प्रणाम कहकर भैया

बतवाजका भी यथायोग्य सत्कार कीजिये। भक्तोंको मान देनेवाले श्रीकृष्ण! द्वारका जानेपर आप भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेवके साथ मेरी भी यात्र सदा बनाये रहियेगा। महाबाहो! आनन्दवेशको प्रजा, अपने माता-पिता तथा दृष्टिगन्तवी अन्य-बाणधर्मोंसे मितकर पुनः मेरे अरव्यधेय-धर्ममें पधारियेगा। ये तरह-तरहके रत्न, धन और जूतरी-जूतरी वस्तुएँ, जो आपको परंद हों, लेकर यात्रा कीजिये। केवल! आपहीकी कृपासे हमारे राज् मार्गे गये और सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य हमलोगोंके हाथमें आया है (अतः यह सब कुछ आपहीका है)।'

धर्मराज युधिष्ठिरके यों कहनेपर पुरुषधेय भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'महाबाहो! ये रत्न, धन और सम्पत्ती पृथ्वी केवल आपकी है। यही नहीं, मेरे धर्ममें भी जो कुछ धन-धर्मव है, उसको भी आप अपना ही समझिये।' उनके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिरने 'जो आज्ञा' कहकर उनके बधनोंका आदर किया। तत्पश्चात् श्रीकृष्णने अपनी बुद्धि कुन्तीके पास जाकर बात-चीत की और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया तथा उनको प्रवर्षिणा करके विदुरजी आदि सब सौगन्धि सत्कारपूर्वक बिदा होकर युधिष्ठिर और कुन्तीकी आज्ञासे मुमत्राकी भी हाथ से तिका और अपने दिव्य रथपर सवार हो वे हस्तिनापुरसे बाहर निकले। उस समय नगरके निवासी मनुष्य उन्हें सब ओरसे घेरे हुए थे। कर्पध्वज अर्जुन, सात्यकि, नकुल, सहदेव, भगवा बुद्धिवाले विदुरजी और गजराजके समान पराक्रमी भीमसेन—ये सब लीग भगवान् श्रीकृष्णके पीछे-पीछे उन्हें पहुँचानेके लिये कुछ दूरतरक गये। तबनन्तर, श्रीकृष्णने समस्त कौरवों और विदुरजीको सोटाकर दारुक तथा सात्यकिसे कहा—'अब छोड़ोको तेजोंके हाथ हाँकी।'

सगरमें श्रीकृष्णसे कौरवोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तङ्क मुनिका कुपित होना और

श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करके अपने अध्यात्मज्ञानका वर्णन करना

वंशम्पायनजी कहते हैं—'राजन्! इस प्रकार द्वारका जाते हुए श्रीकृष्णको गले लगाकर सब पाण्डव अपने सेवकों-सहित पीछे लौटे। अर्जुनने बार-बार उन्हें छातीसे लगाया और जबतक वे आँसुसे ओमल नहीं हुए तबतक उन्हींकी ओर दृष्टि लगाये लड़े रहे। श्रीकृष्णका भी यही हाल था। जब रथ दूर चला गया तो अर्जुनने बड़े कष्टसे श्रीकृष्णकी ओर सगी हुई दृष्टि पीछेको लौटायी। इसी प्रकार श्रीकृष्णने भी बड़ी कठिनतासे अर्जुनकी ओरसे दृष्टि हटायी। भगवान्की

यात्राके समय अनेकों अद्भुत शकुन होने लगे। हवा बड़े वेगसे झाली और उनके रथके आगेसे धूल, बंकड़ और कटि उड़कर अलग कर देती थी। इन्हें पवित्र एवं सुगन्धित जल तथा दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करते थे। इस प्रकार समयत युधिष्ठिर यात्रा करते हुए महाबाहु श्रीकृष्ण मारवाड़ देशमें जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अमिन्तवेशको उत्तङ्क मुनिका दर्शन एवं पूजन किया। तत्पश्चात् मुनिने भी उनका रथ किया। फिर दोनोंने शीतौकी ब्रुगल पुटी।



विप्रवर उक्तः मुनिने भगवान्से प्रश्न किया—‘श्रीकृष्ण ! क्या तुम कौरवों और पाण्डवोंके घर जाकर उनमें मेल करा आये ? क्या अब उनमें अविचल भ्रातृ-भाव स्थापित हो गया है ? वे तुम्हारे सम्बन्धी और परम प्रिय हैं ; उन वीरोंमें संधि कराकर ही तो लौट रहे हो न ? क्या अब पाण्डु और धृतराष्ट्रके पुत्र तुम्हारे साथ संसारमें सुखपूर्वक विचर सकेंगे ? कौरवोंके शान्त हो जानेसे तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पाण्डवोंको अब अपने राज्यमें सुख मिलेगा न ? तात ! मैं सदा इस बातकी सम्भावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करनेसे कौरव-पाण्डवोंमें मेल हो जायगा । मेरी वह आशा असफल तो नहीं हुई ?’

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महर्षे ! मैंने कौरवोंके पास जाकर उन्हें शान्त करनेके लिये बड़ी कोशिश की ; किंतु वे किसी तरह संधिके लिये तैयार न हुए । इस कारण सबके-सब अपने पुत्र और बान्धवोंसहित युद्धमें मारे गये । प्रारब्धके विधानको कोई बुद्धि और बलसे नहीं मिटा सकता ; आपको तो ये सब बातें मालूम ही होंगी । कौरवोंने मेरी, भीष्मजीकी तथा विदुरजीकी भी सम्मतिको ठुकरा दिया । इसीलिये वे आपसमें लड़कर नष्ट हो गये । पाण्डव-पक्षमें भी युधिष्ठिर आदि पाँच भाई ही बचे हैं । उनके सभी पुत्र युद्धमें काम आ चुके हैं । धृतराष्ट्रके पुत्रोंमेंसे (युयुत्सुके सिवा) कोई नहीं बचा है । सभी अपने पुत्र और बान्धवोंसहित मारे गये हैं ।

श्रीकृष्णकी बात सुनकर उक्तः मुनि बड़े क्रोधमें भरकर बोले—‘मधुसूदन ! कौरव तुम्हारे सम्बन्धी और प्रेमी थे, तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की है ; अतः आज मैं तुम्हें अवश्य शाप दूंगा । तुम उन्हें जबर्बस्ती पकड़कर रोक सकते थे, पर ऐसा नहीं किया ; इसलिये मैं क्रोधमें भरकर तुम्हें शाप दिये बिना नहीं रह सकता । ओह ! कुरुवंशके श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गये और तुमने सामर्थ्य रहते हुए भी उनकी उपेक्षा की ।’

श्रीकृष्णने कहा—भृगुनन्दन ! पहले मेरी बात तो सुनिये । आप तपस्वी हैं, इसलिये मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये । मैं आपको अध्यात्मतत्त्वकी बात सुना रहा हूँ । उसे सुननेके पश्चात् आपकी इच्छा हो तो मुझे शाप दे दीजियेगा । इतना याद रखिये कि कोई भी पुरुष थोड़ी-सी तपस्याके बलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । आप तपस्वियोंमें श्रेष्ठ हैं, आपकी तपस्याका तेज बहुत बढ़ा हुआ है, आपने गुरुजनोंको भी अपनी सेवासे संतुष्ट किया है तथा बाल्यावस्थासे ही आप ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं—इन सब बातोंको मैं अच्छी तरह जानता हूँ ; इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर संचित किये हुए आपके तपका मैं नाश कराना नहीं चाहता ।

उक्तः मुनिने कहा—केशव ! तुम अपने कथनानुसार उत्तम अध्यात्मतत्त्वका वर्णन करो । उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याणके लिये आशीर्वाद दूंगा अथवा शाप ही दे दूंगा ।

श्रीकृष्णने कहा—महर्षे ! आपको मालूम होना चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुण—ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं । रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं । इस बातको निश्चित समझिये कि सम्पूर्ण भूत मुझमें हैं और मैं सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित हूँ । सम्पूर्ण दैत्य, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओंका मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है । विद्वान् लोग जिसे सत्-असत्, व्यक्त-अव्यक्त और क्षर-अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही स्वरूप है । मुने ! चारों आश्रमोंके जो चार धर्म प्रसिद्ध हैं तथा वेदोक्त जितने कर्म हैं, वे कोई मुझसे भिन्न नहीं हैं । असत्, सदसत् तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत् है, वह भी मुझ सनातन देवाधिदेवसे पृथक् नहीं है । ॐकारसे आरम्भ होनेवाले चारों वेद मुझ ही समझिये । यज्ञमें यूप, सोम, चरु, देवताओंको तृप्त करने-वाला होम, होता और हवन-सामग्री भी मैं ही हूँ । अश्वर्यु, कल्पक और संस्कार किया हुआ हविष्य—ये सब मेरे ही स्वरूप हैं । बड़े-बड़े यज्ञोंमें उद्राता उच्च स्वरसे साम-गान करके मेरी ही स्तुति करते हैं । प्रायश्चित्त-कर्ममें शान्ति-पाठ

तथा मङ्गल-यात्रा करनेवाले ब्राह्मण मुझ विश्वकर्माका ही सदा स्तवन करते हैं। सब प्राणियोंपर दया करनास्प जो धर्म है उसको मेरा ज्येष्ठ पुत्र समझिये, वह मेरे मनसे प्रकट हुआ है। मैं धर्मकी रक्षा तथा स्थापनाके लिये अनेकों योनियोंमें अवतार धारण करता हूँ और भिन्न-भिन्न रूप तथा वेप बनाकर तीनों लोकोंमें विचरता रहता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलयका कारण हूँ। सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि और संहार मुझमें ही होते हैं। जब-जब युगका परिवर्तन होता है तब-तब मैं प्रजाकी भलाईके लिये भिन्न-भिन्न योनियोंमें प्रविष्ट होकर धर्म-मर्यादाकी स्थापना करता हूँ। जब देव-योनियोंमें अवतार लेता हूँ, उस समय देवताओंकी ही भाँति सारे आचार-विचारका पातन

करता हूँ। गण्डर्ब-योनियोंमें अवतार लेनेपर मेरा सारा आचार-व्यवहार गण्डर्बोंकी ही समान होता है। इसी प्रकार नाग-योनियोंमें नागोंकी तरह और यक्ष-राक्षसकी योनियोंमें जर्होंकी भाँति यथावत् आचरण करता हूँ। इस समय मैंने मनुष्य-अवतार धारण किया है, इसलिये कौरवोंपर अपनी शक्तिका प्रयोग न करके पहले दानतपपूर्वक ही उनमें प्रायश्चा भी धो; किन्तु भीहृद्रस्त होनेके कारण जहाँनी मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद शोधमें मरकर मैंने बड़े-बड़े भय दिखाये और उन्हें बहुत डराया-धमकाया, परंतु वे अंधमते मुक्त एवं कातप्रस्त होनेके कारण मेरी बात माननेको राजी न हुए। अतः मुझमें प्राण देकर इस समय स्वर्गमें पहुँच हुए हैं। विप्रवर ! आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैंने यह सारा प्रसंग सुना दिया।

श्रीकृष्णका उत्तङ्कु मुनिको विश्वरूपका दर्शन कराना और मरु-देशमें जल प्राप्त होनेका वरदान देना

उत्तङ्कुने कहा—जनादेन ! मैं जानता हूँ आप सम्पूर्ण जगत्के कर्ता हैं। आपने जो मरु ज्ञानका उपदेश किया, इसे निश्चय ही मैं आपकी कृपा समझता हूँ। अब मेरा चित्त प्रसन्न होकर आपकी भक्तिसे परिपूर्ण हो गया है, अतः शाप देनेका विचार न रहा। जनादेन ! यदि मैं आपकी घोड़ी-सी भी कृपा प्राप्त करनेका अधिकारी होऊँ तो आप मुझे अपना ईश्वरीय स्वरूप दिखा दीजिये, मुझे उसे देखनेकी बड़ी इच्छा है।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! मुनिके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान् श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर उन्हें अपने उसी सनातन ब्रह्मण्य स्वरूपका दर्शन कराया, जिसे युद्धके प्रारम्भमें अर्जुनने देखा था। उत्तङ्कु मुनिने उस विराट् विश्व-रूपका दर्शन किया, जिसकी बड़ी-बड़ी मुजाएँ थीं। वह हजारों सूर्योंके समान देदीप्यमान, अग्निके समान तेजस्वी और सम्पूर्ण आकाशको घेरकर खड़ा था। उसके सब ओर मुँह दिखायी देते थे। उस व्यापक परमात्माके अद्भुत ब्रह्मण्य रूपको देखकर उत्तङ्कु मुनिको बड़ा विह्वल हुआ और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे—विश्वकर्मन् ! आपको नमस्कार है। विश्ववातमन् ! अक्षरहीसे सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति होती है। पुष्पी आपके दोनों चरणोंसे और आकाश आपके मस्तक-से व्याप्त है। पुष्पी और आकाशके बीचका भाग आपके उदरसे घिरा हुआ है। सम्पूर्ण विश्वाएँ आपकी भुजाओंमें समायी हुई हैं। अच्युत ! यह सारा दुःख-प्रपञ्च आपहीका स्वरूप है। देवेश्वर ! अब आप अपने इस उत्तम एवं

अविनाशी स्वरूपको समेट लीजिये। मैं फिर आपसे अपने पूर्व रूपमें ही देखना चाहता हूँ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जन्मेजय ! मुनिकी बात सुनकर सदा प्रसन्नचित रहनेवाले श्रीकृष्णने कहा—महर्षे ! आप मुझसे कौं कर माँगिये ! तब उत्तङ्कुने कहा—पुरु-पोतम ! आपके इस स्वरूपको देख रहा हूँ, यही मेरे लिये आज सबसे बड़ा वरदान है ! यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा—'धुने ! आप इसमें कुछ अल्पका विचार न कीजिये। मेरा दर्शन अभीय होता है; अतः आपको मुझसे बर माँगना ही चाहिये।'

उत्तङ्कुने कहा—प्रभो ! यदि वर लेना मेरे लिये आवश्यक समझते हैं तो यही वर दीजिये कि मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो सके; क्योंकि इस मरु-भूमिमें जल बड़ा दुर्लभ है।

तबनन्तर, भगवान्ने अपने तेजको समेटकर उत्तङ्कु मुनिके कहा—महर्षे ! जब जलको आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजियेगा। यह कहकर वे द्वारकाको चले गये। तत्पश्चात् एक दिन उत्तङ्कु मुनिको बड़ी व्याप्त लगी। वे पापीके लिये मरु-भूमिमें बाराँ और धूमने लगे। धूमने-धूमने जाहोने भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण किया। इतनेहीमें उन्हें एक मोक्ष-शुभ्र आशय दिखायी पड़ा, जिसके शरीरमें मीठ और क्रीड़ा जलो हुई थी। वह कुत्तेके मुँडो का था। बरभरते तत्पश्चात् भीष और हाथोंमें जल-आवृत्त अत्यन्त भयंकर जल पड़ना था। ज



विप्रवर उत्तङ्क मुनिने भगवान्से प्रश्न किया—‘श्रीकृष्ण ! क्या तुम कौरवों और पाण्डवोंके घर जाकर उनमें मेल करा आये ? क्या अब उनमें अविचल भ्रातृ-भाव स्थापित हो गया है ? वे तुम्हारे सम्बन्धी और परम प्रिय हैं; उन वीरोंमें संधि कराकर ही तो लौट रहे हो न ? क्या अब पाण्डु और धृतराष्ट्रके पुत्र तुम्हारे साथ संसारमें सुखपूर्वक विचर सकेंगे ? कौरवोंके शान्त हो जानेसे तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पाण्डवोंको अब अपने राज्यमें सुख मिलेगा न ? तात ! मैं सदा इस बातकी सम्भावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करनेसे कौरव-पाण्डवोंमें मेल हो जायगा। मेरी वह आशा असफल तो नहीं हुई ?’

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महर्षे ! मैंने कौरवोंके पास जाकर उन्हें शान्त करनेके लिये बड़ी कोशिश की; किंतु वे किसी तरह संधिके लिये तैयार न हुए। इस कारण सबके-सब अपने पुत्र और बान्धवोंसहित युद्धमें मारे गये। प्रारब्धके विधानको कोई बुद्धि और बलसे नहीं मिटा सकता; आपको तो ये सब बातें मालूम ही होंगी। कौरवोंने मेरी, भीष्मजीकी तथा विदुरजीकी भी सम्मतिको ठुकरा दिया। इसीलिये वे आपसमें लड़कर नष्ट हो गये। पाण्डव-पक्षमें भी युधिष्ठिर आदि पांच भाई ही बचे हैं। उनके सभी पुत्र युद्धमें काम आ चुके हैं। धृतराष्ट्रके पुत्रोंमेंसे (युयुत्सुके सिवा) कोई नहीं बचा है। सभी अपने पुत्र और बान्धवोंसहित मारे गये हैं।

श्रीकृष्णकी बात सुनकर उत्तङ्क मुनि बड़े क्रोधमें भरकर बोले—‘मधुसूदन ! कौरव तुम्हारे सम्बन्धी और प्रेमी थे, तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की है; अतः आज मैं तुम्हें अवश्य शाप दूंगा। तुम उन्हें जबर्दस्ती पकड़कर रोक सकते थे, पर ऐसा नहीं किया; इसलिये मैं क्रोधमें भरकर तुम्हें शाप दिये बिना नहीं रह सकता। ओह ! कुरुवंशके श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गये और तुमने सामर्थ्य रहते हुए भी उनकी उपेक्षा की।’

श्रीकृष्णने कहा—भृगुगुण्डन ! पहले मेरी बात तो सुनिये। आप तपस्वी हैं, इसलिये मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये। मैं आपको अध्यात्मतत्त्वकी बात सुना रहा हूँ। उसे सुननेके पश्चात् आपकी इच्छा हो तो मुझे शाप दे दीजियेगा। इतना याद रखिये कि कोई भी पुरुष थोड़ी-सी तपस्याके बलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। आप तपस्वियोंमें श्रेष्ठ हैं, आपकी तपस्याका तेज बहुत बढ़ा हुआ है, आपने गुरुजनोंको भी अपनी सेवासे संतुष्ट किया है तथा बाल्यावस्थासे ही आप ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं—इन सब बातोंको मैं अच्छी तरह जानता हूँ; इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर संचित किये हुए आपके तपका मैं नाश कराना नहीं चाहता।

उत्तङ्कने कहा—केशव ! तुम अपने कथनानुसार उत्तम अध्यात्मतत्त्वका वर्णन करो। उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याणके लिये आशीर्वाद दूंगा अथवा शाप ही दे दूंगा।

श्रीकृष्णने कहा—महर्षे ! आपको मालूम होना चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुण—ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं। रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बातको निश्चित समझिये कि सम्पूर्ण भूत मुझमें हैं और मैं सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित हूँ। सम्पूर्ण दैत्य, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओंका मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। विद्वान्लोग जिसे सत्-असत्, व्यवक्त-अव्यक्त और क्षर-अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही स्वरूप है। मुने ! चारों आश्रमोंके जो चार धर्म प्रसिद्ध हैं तथा वेदोक्त जितने कर्म हैं, वे कोई मुझसे भिन्न नहीं हैं। असत्, सदसत् तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत् है, वह भी मुझ सनातन देवाधिदेवसे पृथक् नहीं है। ऽंकारसे आरम्भ होनेवाले चारों वेद मुझे ही समझिये। यज्ञमें यूप, सोम, चरु, देवताओंको तृप्त करने-वाला होम, होता और हवन-सामग्री भी मैं ही हूँ। अथर्व्यु, कल्पक और संस्कार किया हुआ हविष्य—ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। बड़े-बड़े यज्ञोंमें उद्राता उच्च स्वरसे साम-गान करके मेरी ही स्तुति करते हैं। प्रायश्चित्त-कर्ममें शान्ति-पाठ

के मनमें यह अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तङ्कके समान गुरु-भक्ति प्राप्त हो। महर्षि गीतमके बहुतसे शिष्य थे; किंतु उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तङ्क पर ही था। उनका इन्द्रिय-संपन्न, शौच, पुष्ट्यार्थका कार्य तथा उत्तम सेवापरायणता देखकर गीतम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे। गीतमके पास हजारों शिष्य आये और (पुष्कुलवासकी अवधि पूरी करके) उनकी आज्ञा लेकर अपने-अपने घर चले गये; किंतु उत्तङ्कपर अधिक प्रेम होनेके कारण महर्षि गीतमने उन्हें अपने घर लौटनेकी आज्ञा नहीं दी। धीरे-धीरे उन महामुनि उत्तङ्ककी बुढ़ापाने आ घेरा; किंतु गुरु-भक्तिमें मग्न रहनेके कारण उन्हें इसका पता ही न लगा। एक दिनकी बात है, वे जंगलमें लकड़ी लानेके लिये गये और वहाँसे लकड़ियोंका बहुत बड़ा बोझ सिरपर लादकर ले आये। बोझ भारी होनेके कारण वे बहुत थक गये। जब आश्रमपर आकर वे उस बोझकी जमीनपर गिराने लगे, उस समय चाँदीके तारकी भाँति सफेद रंगकी उनकी जटा लकड़ीमें चिपक गयी थी; अतः उन लकड़ियोंके साथ ही वह भी जमीनपर गिरी। उत्तङ्क मुनि एक तो उस भारी बोझसे पिस गये थे, दूसरे उन्हें भूल जाता रही थी। उसी अवस्थामें उस सफेद जटाकी देल अपने बुढ़ापेका निश्चय करके वे फूट-फूटकर रोने लगे। तब महर्षि गीतमने वहाँ आकर पूछा—'बेटा! आज तुम्हारा मन शोकसे व्याकुल क्यों हो रहा है? मैं इसका क्या कारण सुनना चाहता हूँ। तुम निःसंकोच होकर सब बातें बताओ।' उत्तङ्कने कहा—

गुरुदेव ! मेरा मन आपहीमें लगा रहता था। आपहीका प्रिय करनेकी इच्छासे मैं सदा आपकी सेवामें संलग्न रहता, आपहीमें श्रद्धा रखता और आपहीकी भक्ति किया करता था। इसलिये अबतक मुझे पता ही न चला कि कब मैं बुढ़ा हो गया। मैंने कभी कोई सुख नहीं उठाया, मुझे यहाँ रहते सौ वर्ष बीत गये तो भी आपने मुझे घर लौटनेकी आज्ञा नहीं दी। मेरे बाद संकड़ों और हजारों शिष्य यहाँ आये और आपकी आज्ञा लेकर चले गये (केवल मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ)।

गीतमने कहा—मग्नन्दन ! तुम्हारी गुरु-शुभ्या बेरकर तुमपर मेरा बहुत प्रेम हो गया था; इसीलिये इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यानमें यह बात नहीं आयी। अच्छा, अबसे यदि तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देता हूँ। शीघ्र अपने घरको जाओ, विलम्ब न करो।

उत्तङ्कने कहा—मगवन् ! मैं आपको गुरु-दक्षिणामें क्या दूँ? यह बतानेकी कृपा कीजिये। उसे आपकी सेवामें अर्पण करनेके बाद आज्ञा लेकर घरको जाऊँगा।

गीतमने कहा—बेटा ! सत्युदयोंके मतमें गुरुजनोंको

संतुष्ट करना ही उनके लिये सबसे बड़ी दक्षिणा है। तुमने जो सेवा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ इसमें तनिक भी संदेह न मानो।

तदनन्तर, उत्तङ्कने युवावस्थाको प्राप्त होकर गुरुकी आज्ञासे गुरुपत्नीके पास जाकर पूछा—'माताजी ! मुझे आज्ञा दीजिये। गुरु-दक्षिणामें आपको क्या दूँ? मैं धन



और प्राण देकर भी आपका प्रिय और हित करना चाहता हूँ। इस लोकमें जो अत्यन्त दुर्लभ, अद्भुत और बहुमूल्य रत्न होगा, उसे भी मैं अपनी तपस्यासे ला सकता हूँ; इसमें तनिकभी संशय नहीं है।

अहल्या बोली—बेटा ! मैं तुम्हारी भक्तिसे बहुत संतुष्ट हूँ और यही मेरे लिये पर्याप्त दक्षिणा है। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो।

यह सुनकर उत्तङ्कने फिर कहा—'माताजी ! मुझे आपका कोई-न-कोई प्रिय कार्य करना ही है; इसलिये आज्ञा दीजिये मैं क्या करूँ?'

अहल्या बोली—बेटा ! राजा सोदासकी रानीने अपने कानोंमें मणियोंके बने हुए दो विष्य कुण्डल पहन रखे हैं। उन्हें मेरे लिये ला दो। उनसे गुरु-दक्षिणा पूरी हो जायगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।

जनमेजय ! 'बहुत अच्छा' कहकर उत्तङ्कने गुरुपत्नीकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनका प्रिय करनेकी इच्छामें

धारा गिरती दिखायी देती थी। महर्षिको प्यासा जानकर चाण्डालने हँसते हुए कहा—‘उत्तङ्क ! आओ, मुझसे पानी लेकर पी लो। तुम्हें प्याससे कण्ट पाते देख मुझे बड़ी दया आ रही है।’

चाण्डालके इस प्रकार कहनेपर उत्तङ्क मुनिने उस जलको लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देनेवाले श्रीकृष्णकी कठोर वचनोंसे खबर ली। उन्होंने क्रोधमें भरकर उस जलको ग्रहण नहीं किया और अपने निश्चयपर अटल रहकर उस चाण्डालको भी डाँट बतायी। उनके इन्कार करनेपर चाण्डाल कुत्तोंके साथ वहाँ अन्तर्धान हो गया। यह देख उत्तङ्क मुनि मनही मन बहुत लज्जित हुए और भीतर-ही-भीतर ऐसा समझने लगे कि श्रीकृष्णने मेरे साथ धोखा किया है। इतनेहीमें उसी मार्गसे शङ्ख-चक्र और गदा धारण किये हुए



महाबुद्धिमान् भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट होकर वहाँ आये। तब उत्तङ्कने उनसे कहा—‘पुरुषोत्तम ! ब्राह्मणके लिये चाण्डालके पेशाब का जल देना आपको उचित नहीं था।’ उनकी बात सुनकर भगवान् जनार्दन उत्तङ्क मुनिको मधुर वचनोंसे सान्त्वना देते हुए बोले—‘महर्षे ! वहाँ जैसा रूप धारण करके वह जल आपको देना उचित था, उसी रूपसे दिया गया, किंतु आप उसे समझ न सके। मैंने आपके लिये वज्रधारी इन्द्रसे जाकर कहा था कि ‘तुम उत्तङ्क मुनिको जलके रूपमें अमृत प्रदान करो।’ मेरी बात सुनकर इन्द्र बारंबार यह कहने लगे—‘मनुष्य अमर नहीं हो सकता। इसलिये आप उन्हें अमृत न देकर और कोई वर दीजिये।’ किंतु मैंने जोर देकर कहा कि ‘उत्तङ्क मुनिको तो अमृत ही देना है।’ तब देवराज इन्द्र मुझे प्रसन्न करके बोले—‘महामते ! यदि भृगुनन्दन उत्तङ्क मुनिको अमृत देना आवश्यक है तो मैं चाण्डालका रूप धारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूँगा। यदि इस प्रकार वे लेना स्वीकार करेंगे तो उन्हें देनेके लिये अभी जा रहा हूँ और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत देनेको राजी न होऊँगा।’ इस तरहकी शर्त करके साक्षात् इन्द्र चाण्डालके रूपमें उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे; किंतु आपने डाँट बताकर उन्हें विमुक्त कर दिया, यह आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध हुआ। अच्छा, वह बात तो बीत गयी। अब मैं आपकी तीव्र पिपासाको शान्त करने और जलकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये दूसरा वरदान देता हूँ। ब्रह्मन् ! जब-जब आपको पानी पीनेकी इच्छा होगी तब-तब मरु-भूमिके आकाशमें जलसे भरे हुए मेघोंकी घटा घिर आयेगी। वे मेघ आपको सरस जल अर्पण करेंगे और ‘उत्तङ्क मेघ’ के नामसे इस पृथ्वीपर प्रसिद्ध होंगे।’

जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर विप्रवर उत्तङ्क मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इस समय भी मरु-भूमिमें उत्तङ्क नामवाले मेघ वर्षा करते रहते हैं।

उत्तङ्ककी गुरु-भक्तिका वर्णन—गुरुपत्नीकी आज्ञासे उत्तङ्कका सौदासके पास जाकर उनकी रानीके कुण्डल माँगना

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! महामना उत्तङ्क मुनिने ऐसी कौन-सी तपस्या की थी, जिसके बलपर वे भगवान् विष्णुतकको शाप देनेको तैयार हो गये थे ?

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! उत्तङ्क मुनि बड़े भारी तपस्वी, तेजस्वी और गुरु-भक्त थे। (वे जब गुरुके यहाँ रहते थे, उस समय उन्हें देखकर) समस्त ऋषि-कुमारों-

सौदासने कहा—ब्रह्मन् ! वे आपको जंगलमें किसी ऋरुनेके किनारे मिल सकती हैं। यह दिनका छठा भाग है (मैं आहारकी खोजमें हूँ)। इस समय मैं उनसे नहीं मिल सकता।

राजाकी बात सुनकर उत्तङ्क मुनि उनकी रानी मदन्यन्तीके पास गये और उनसे अपने आनेका प्रयोजन बतलाया। राजाका संदेश सुनकर विशाललोचना रानीने महाबुद्धिमान् उत्तङ्क मुनिको इस प्रकार उत्तर दिया—‘ब्रह्मन् ! महाराजने जो आपको कुण्डल देनेकी बात कही है, सो ठीक है। आप असत्य नहीं कहते तो भी आपको मेरे विश्वासके लिये उनका कोई चिह्न ले आना चाहिये। मेरे ये दोनों मणिमय कुण्डल दिव्य हैं। देवता, यक्ष और महर्षिलोग नाना प्रकारके उपायोंद्वारा इन्हें चुरा ले जानेको इच्छासे सदा छिद्र ढूँढते रहते हैं। यदि इन्हें पृथ्वीपर रख दिया जाय तो नाग हृदय से, अपवित्र अवस्थामें धारण करनेपर यक्ष उड़ा ले जायेंगे

और इन्हें पहनकर यदि कोई नौद सेने लग जाय तो देवता लोग जबदेस्ती छीन लेंगे। इन छिद्रोंमें सदा ही इन कुण्डलोंके सो जानेका भय रहता है। देवता, राक्षस और नागोंसे सावधान रहनेवाला मनुष्य ही इनको धारण कर सकता है। इनसे रात-दिन सोना टपकता रहता है। रातमें नक्षत्रों और ताराओंके समान इनकी चमक होती है। इनको पहन सेनेपर विषसे, अग्निसे तथा अन्य भयदायक जन्तुओंसे भी कभी भय नहीं होता, फिर भूल-व्यासका भय तो ही ही कैसे सकता है? छोटे कदका मनुष्य इन कुण्डलोंको पहने तो ये छोटे हो जाते हैं और बड़ी डील-डौलवाले मनुष्यके पहननेपर उसीके अनुरूप ये बड़े हो जाते हैं। ऐसे गुणोंसे युक्त होनेके कारण ये मेरे दोनों कुण्डल सबकी प्रांताके पात्र हैं। इनकी तीनों लोकोंमें प्रतिष्ठि है। अतः आप यदि महाराजकी आज्ञासे इन्हें सेने आये हैं तो इसकी कोई पहचान साइये।

कुण्डल लेकर उत्तङ्कका लौटना, मार्गमें उन कुण्डलोंका अमहरण होना और अग्निदेवकी कृपासे फिर उन्हें पाकर गुरुपत्नीको देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! रानी मदन्यन्तीकी बात सुनकर उत्तङ्क मुनिने महाराज मित्रसह (सौदास) के पास आकर उनसे कोई पहचान मांगी। तब इक्ष्वाकु-वंशियोंमें श्रेष्ठ उन नरेशने पहचानके रूपमें रानीको सुनानेके लिये निम्नाङ्कित संदेश दिया।

सौदास बोले—प्रिये ! मैं जिस दुर्गतिमें पड़ा हूँ, यह मेरे लिये कल्याण करनेवाली नहीं है तथा इसके सिवा अब दूसरी कोई भी गति नहीं है। मेरे इस विचारको जानकर तुम अपने दोनों मणिमय कुण्डल इन ब्राह्मण देवताको दे डालो।

मह सुनकर महर्षि उत्तङ्क रानीके पास गये और उन्होंने राजाकी कही हुई बात वहाँ ज्यों-की-त्यों दुहरा दी। महाराजो मदन्यन्तीने स्वामीका वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय कुण्डल उत्तङ्क मुनिको दे दिये। कुण्डल पाकर उत्तङ्क मुनि पुनः राजाके पास आकर बोले—‘महाराज ! आपके पृष्ठ वचनका अभिप्राय क्या है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ।’

सौदासने कहा—ब्रह्मन् ! सत्रिपलोग सृष्टिके प्रारम्भ कालसे ही ब्राह्मणोंकी पूजा करते चले आ रहे हैं तथापि कभी-कभी ब्राह्मणोंकी ओरसे भी क्षत्रियोंके लिये बहुत-से दोष प्रकट हो जाया करते हैं। मैं सदा ही ब्राह्मणोंको



प्रणाम किया करता था; किन्तु एक ब्राह्मणके ही शापसे मुझे

उन कुण्डलोंको लानेके लिये शीघ्रतापूर्वक चल दिये । जाते-जाते मनुष्य-भक्षी राजा सौदासके पास पहुँच गये ।

इधर उत्तङ्क मुनिको आश्रममें न देखकर गौतमने अपनी पत्नीसे पूछा—‘आज उत्तङ्क क्यों नहीं दिखायी देते?’ अहल्या बोली—‘वे मेरे लिये कुण्डल लाने गये हैं।’ यह सुनकर महर्षिने कहा—‘यह तुमने अच्छा नहीं किया । राजा सौदास ब्राह्मणोंके शापसे मनुष्य-भक्षी राक्षस हो गये हैं; इसलिये वे उस ब्राह्मणको अवश्य मार डालेंगे।’

अहल्या बोली—भगवन् ! मैं इस बातको नहीं जानती थी; इसीलिये उन्हें ऐसा काम सौंप दिया । मुझे विश्वास है कि आपकी कृपासे उनपर कोई आँच नहीं आने पायेगी ।

पत्नीके ऐसा कहनेपर महर्षि गौतम बोले—‘अच्छा, ऐसा ही हो।’ उधर उत्तङ्कने निर्जन वनमें जाकर राजा सौदासको देखा—बड़ी भयानक आकृति थी । लंबी-लंबी दाढ़ी और मूँछ ! सारा शरीर मनुष्यके रक्तसे रँगा हुआ । उन्हें देखकर उत्तङ्कको तनिक भी घबराहट नहीं हुई । इन्हें देखते ही यमराजके समान भयंकर राजा सौदास उठकर खड़े हो गये और पास आकर बोले—‘विप्रवर ! अहो भाग्य ! जो दिनके छठे भागमें आप स्वयं ही मेरे पास चले आये । मैं इस समय आहार की ही खोजमें था ।’



उत्तङ्कने कहा—राजन् ! मैं गुरु-दक्षिणाके लिये घूमता-फिरता आपके पास आया हूँ । जो गुरु-दक्षिणा देनेके

लिये उद्योग कर रहा हो, उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिये ऐसा मनीषी पुरुषोंका वचन है ।

राजाने कहा—विप्रवर ! मैंने दिनके छठे भागमें आहार करनेका नियम ले रक्खा है और यह वही समय है अब मैं भूखसे पीड़ित हो रहा हूँ; इसलिये आपको छोड़ नहीं सकता ।

उत्तङ्कने कहा—महाराज ! यही सही; किंतु मेरी एक शर्त मान लीजिये । मैं गुरु-दक्षिणा देकर फिर आपके अधीन हो जाऊँगा । मैंने अपने गुरुको जो वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा की है, वह आपके ही अधीन है; अतः आपसे उसकी भिक्षा माँगता हूँ । आप प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको बहुत-से रत्न दान करते हैं । इस पृथ्वीपर आप एक श्रेष्ठ दानोके रूपमें प्रसिद्ध हैं और मुझे भी दान लेनेका उत्तम पात्र समझिये । मैं गुरुको जो वस्तु देना चाहता हूँ, उसका मिलना आपके ही हाथमें है; अतः मेरी अभीष्ट वस्तु मुझे दे दीजिये । महाराज ! मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह वस्तु गुरुको देकर फिर अपनी की हुई शर्तके अनुसार आपके पास आ जाऊँगा । मेरी यह बात मिथ्या नहीं हो सकती । मैं कभी हँसी-खेलमें भी झूठ नहीं बोला हूँ, फिर ऐसे अवसरपर तो बोल ही कैसे सकता हूँ ।

सौदासने कहा—ब्रह्मन् ! यदि आपकी गुरु-दक्षिणा मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई ही समझिये । अगर आप मेरी कोई वस्तु लेनेके योग्य समझते हैं तो माँगिये, इस समय मैं आपको क्या दूँ ?

उत्तङ्कने कहा—पुरुषश्रेष्ठ ! आपका दिया हुआ दान मैं सदा ही ग्रहण करनेके योग्य मानता हूँ । इस समय आपकी रानीके दोनों मणिमय कुण्डल माँगनेके लिये यहाँ आया हूँ ।

सौदासने कहा—ब्रह्मर्षे ! वे मणिमय कुण्डल तो मेरी रानीके ही योग्य हैं । आप और कोई वस्तु माँगिये, उसे मैं अवश्य दे दूँगा ।

उत्तङ्कने कहा—राजन् ! यदि आपका मुझपर विश्वास हो और आप मुझे उत्तम पात्र समझते हों तो बहाना न कीजिये; वे दोनों कुण्डल मुझे देकर सत्यका पालन कीजिये ।

उत्तङ्कके ऐसा कहनेपर राजाने कहा—‘विप्रवर ! आप रानीके पास जाइये और उनसे मेरी आज्ञा सुनाकर वे कुण्डल माँग लीजिये । वे उत्तम व्रतका पालन करनेवाली हैं । आपके द्वारा मेरा संदेह सुनकर निःसंदेह दोनों कुण्डल दे देंगी ।’

उत्तङ्कने कहा—महाराज ! मैं कहाँ आपकी पत्नीको ढूँढ़ता फिरूँगा ? मुझे क्योंकर उनका दर्शन हो सकता है ? आप स्वयं ही उनके पास क्यों नहीं चले चलते ?

उत्तङ्कने कहा—ब्रह्मन् । यदि नागलोकमें जाकर उन कुण्डलोंको प्राप्त करना मेरे लिये असम्भव है तो मैं आपके सामने ही अभी अपने प्राण त्याग देता हूँ ।

बच्यपारो इन्द्र जब किसी तरह उत्तङ्कको अपने निश्चयसे हटा न सके तो उनके डँढेके अपभ्राममें अपने यज्ञास्त्रको धोड़ दिया । उस यज्ञके प्रहारसे पृथ्वी विदीर्ण हो गयी और नागलोकका रास्ता बन गया । उसके द्वारा नागलोकमें प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है । उसके चारों ओर दिव्य मणि-मयताम्रोंसे अलङ्कृत अनेकों प्रकार हैं । वहाँ स्फटिक मणिकी बनी हुई सीढ़ियोंसे सुरोमित भावद्वारों, निर्मल जलवाली अनेकों नदियों और विहग-बृन्दसे शोभायमान बहुतेरे सुन्दर-सुन्दर वृक्ष हैं । नागलोकका बाहरी दरवाजा ही योजन ऊँचा और पाँच योजन चौड़ा है । नागलोककी यह विशालता देखकर उत्तङ्क मुनि दीन (हतोत्साह) हो गये । अब उन्हें फिर कुण्डल पानेकी आशा न रही । इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया, जिसकी पूँछके बाल सफेद और काले तथा आँध और भूँह सात थे । वह अपने तेजसे प्रज्वलित ही रहा था । उसने उत्तङ्कसे कहा—बेटा ! मेरे अपान-भार्य (गुदा) में फूँक मारो । इससे तुम्हें कुण्डल मिल जायेंगे । ऐरावतका पुत्र तुम्हारे कुण्डल चुराकर ले आया है । मेरी गुदामें फूँक मारनेसे तुम घृणा न करो; क्योंकि गीतमके आधममें रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है ।

उत्तङ्कने पूछा—गुरुदेवके आधमपर मैंने कभी आपका दरान किया है, इस बातका ज्ञान मुझे कैसे हो ? और आपके कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले मैं जो काम अनेकों बार कर चुका हूँ वह क्या है ? यह सुनना चाहता हूँ ।

घोड़ोंने कहा—ब्रह्मन् । मैं तुम्हारे गुरुका भी गुरु जातब्रवा अग्नि हूँ । तुमने अपने गुरुके लिये सदा पवित्र रहकर विधिपूर्वक मेरी पूजा की है, इसलिये मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा । अब तुम मेरे बताये अनुसार कार्य करो । विलम्ब न करो ।

अग्निदेवके ऐसा कहनेपर उत्तङ्कने उनकी आज्ञाका पालन किया । इसने प्रसन्न होकर वे नागलोकको भ्रम करनेके लिये प्रज्वलित हो उठे । जिस समय ब्राह्मणने फूँक मारी, उसी समय उस भावरूपधारी अग्निके रोम-रोमसे और-ओरसे धुआँ उठने लगी, जो नागलोकको भयभीत करनेवाला था । यह धुआँ इतना बढ़ा कि वहाँ कुछ सूत्र नहीं पड़ता था । ऐरावतके घरमें हाहाकार मच गया । बालुकि आदि मुख्य-



मुख्य नागोंके घर धूमसे व्याघ्रादित हो गये । उनमें अंधारा छा गया । वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो बृहत्तासे डके हुए पर्वत और वन हों । धुआँ सततेसे नागोंको आँतें सात ही गयीं और वे अग्निके तेजसे संतप्त होने लगे, अतः महामुनि उत्तङ्कका विचार जाननेके लिये सभी एकत्रित होकर उनके पास आये । उस समय उन अत्यन्त तेजस्वी मनुषिका बड़े निश्चय पुनः उनको आँतें प्रयत्न कातर हो गयीं तथा सबने उनका विधिपूर्वक पूजन किया । अन्तमें सभी नाग झूड़े और बालकोंको धागे करके हाथ जोड़ मत्तक मुकाकर प्रणाम करते हुए बोले—भगवन् ! हमपर प्रसन्न हो जाइये (हम आपके कुण्डल लौटाये देते हैं) । इस प्रकार ब्राह्मण देवताको प्रसन्न करके नागोंने उन्हें पाछ और अर्घ्य निवेदन किया और वे दिव्य कुण्डल भी वापस कर दिये । तबन्तर नागोंसे सम्मानित होकर उत्तङ्क मुनि अग्निदेवकी प्रवृत्तिपा रूपके गुरुके आधमकी ओर चल दिये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने गुरुपत्नीको वे दिव्य कुण्डल वे दिये और बालुकि आदि नागोंके वहाँ जो घटना घटी थी, वह सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गीतमसे कह सुनाया । जनमेजय । इस प्रकार तीनों लोकोंमें घुमकर महात्मा उत्तङ्कने वे मणिमय दिव्य कुण्डल प्राप्त किये थे । वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान् सप्तमी थे ।

यह दोष—यह दुर्गति प्राप्त हुई है। मैं मदन्यन्तीके साथ यहाँ रहता हूँ। मुझे इस दुर्गतिसे छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं दिखायी देता। अब इस लोकमें रहकर सुख पाने अथवा परलोकमें स्वर्गीय सुख भोगनेके लिये दूसरी कोई गति नहीं दीख पड़ती। कोई भी राजा ब्राह्मणोंके साथ विरोध करके न तो इसी लोकमें चैनसे रह सकता है और न परलोकमें ही सुख पा सकता है (यही मेरे गूढ़ संदेशका तात्पर्य है)। अच्छा, अब आपकी इच्छाके अनुसार ये मणिमय कुण्डल मैंने आपको दे दिये। अब आपने जो प्रतिज्ञाकी है, उसको सफल कीजिये।

उत्तङ्कने कहा—राजन्! मैं अपनी प्रतिज्ञाका पालन करूँगा, पुनः आपके अधीन हो जाऊँगा; किंतु इस समय एक प्रश्न पूछनेके लिये आपके पास लौटकर आया हूँ।

सौदासने कहा—विप्रवर! आप इच्छानुसार प्रश्न कीजिये, मैं आपकी बातका उत्तर दूँगा। आपके मनमें जो भी संदेह होगा, उसका निवारण करूँगा। इसमें मुझे कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

उत्तङ्कने कहा—राजन्! धर्मनिपुण विद्वानोंने उसी-को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणीका संयम करता हो—सत्य-वादी हो। जो मित्रोंके साथ विषमताका बर्ताव करता है, उसे चोर माना गया है। आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गयी है, इसलिये आप मुझे अच्छी सलाह दीजिये। बताइये, आप-जैसे पुरुषके पास मुझे फिर लौटकर आना चाहिये या नहीं?

सौदासने कहा—विप्रवर! यदि आप मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हैं तो मेरा कहना यही है कि आप किसी तरह मेरे पास न आवें, इसीमें आपका कल्याण दिखायी देता है। यदि आयेंगे तो निःसंदेह आपकी मृत्यु हो जायगी।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! इस प्रकार बुद्धिमान् राजा सौदासके मुखसे उचित और हितकी बात सुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तङ्कमुनि अहल्याके पास चल दिये। गुरुपत्नीका प्रिय करनेके लिये दोनों दिव्य कुण्डल हस्तगत करके वे बड़े वेगसे गौतमके आश्रमकी ओर जा रहे थे। रानी मदन्यन्तीके कथनानुसार उन्हें उन कुण्डलोंकी रक्षाका भी ध्यान था, इसलिये वे उनको काले मृगछालेमें बाँधकर ले जा रहे थे। रास्तेमें एक स्थानपर उन्हें बड़े जोर-की भूख लगी। वहाँ पास ही फलोंके भारसे भुका हुआ एक बेलका वृक्ष दिखायी दिया। महर्षि उत्तङ्क उस वृक्षपर चढ़ गये और मृगछालाको उन्होंने उसकी एक शाखामें बाँध दिया। फिर बेल नीचे गिराने लगे। उस समय उनकी दृष्टि बेलोंपर ही लगी हुई थी (वे कहाँ गिरते हैं इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था)। उनके तोड़े हुए प्रायः सभी बेल मृगछालापर ही, जिसमें दोनों कुण्डल बँधे हुए थे, गिरे।

उनकी चोटसे बन्धन खुल गया और वह मृगछाला सहसा कुण्डलसहित वृक्षके नीचे जा गिरा। वहाँ ऐरावत-कुलमें उत्पन्न एक नाग पहलेसे मौजूद था। मृगछालाके अंदर रखे हुए उन मणिमय कुण्डलोंपर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने झपटकर उन्हें मुँहमें दबा लिया और एक बल्मीकमें घुसकर कुण्डलसहित गायब हो गया।

साँपके द्वारा कुण्डलोंकी चोरी होती देख उत्तङ्कमुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यन्त क्रोधमें भरकर वृक्षसे कूद पड़े। नीचे आकर एक लकड़ीसे वे बल्मीकके अंदरकी बिल खोदने लगे। उनके मनमें तनिक भी घबड़ाहट नहीं हुई। लगातार पैंतीस दिनोंतक वे बिल खोदनेके कार्योंमें जुटे रहे। उनके असह्य वेगको पृथ्वी भी न सह सकी। वह उनके दण्डकी चोटसे घायल एवं अत्यन्त व्याकुल होकर डगमगाने लगी। ब्रह्मर्षि उत्तङ्क नागलोकमें जानेका मार्ग बनानेके लिये निश्चय करके धरती खोदते ही जा रहे थे, यह देखकर महातेजस्वी इन्द्र घोड़े जुते हुए रथपर बैठकर हाथमें वज्र लिये हुए उस स्थान-पर आये और विप्रवर उत्तङ्कसे मिले। इन्द्र उत्तङ्कके दुःखसे दुखी थे, अतः ब्राह्मणका वेप बनाकर वे उनसे बोले—



‘ब्रह्मन्! यह काम तुम्हारे वशका नहीं है। नागलोक यहाँसे हजारों योजन दूर है। इस काठके डंडेसे वहाँका रास्ता नहीं बनाया जा सकता। मेरी समझमें यह काम तुम्हारे लिये असाध्य है।’

उत्तङ्कने कहा—ब्रह्मन् ! यदि नागलोकमें जाकर उन कुण्डलोंकी प्राप्ति करना मेरे लिये असम्भव है तो मैं आपके सामने ही अभी अपने प्राण त्याग देता हूँ ।

ब्रह्मचारी इन्द्र जब किसी तरह उत्तङ्कको अपने निश्चयसे हटा न सके तो उनके बड़ेके अग्रभागमें अपने ब्रह्मास्त्रको जोड़ दिया । उस ब्रह्मके प्रहारसे पृथ्वी विदीर्ण हो गयी और नागलोकका रास्ता बन गया । उसके द्वारा नागलोकमें प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है । उसके चारों ओर दिव्य मणि-भूषताओंसे अलंकृत अनेकों प्रकार हैं । वहाँ स्फटिक मणिकी बनी हुई सीढ़ियोंसे सुशोभित बावड़ियाँ, निर्मल जलवाली अनेकों नदियाँ और विहग-युग्मसे शोभायमान बहुतेरे सुन्दर-सुन्दर वृक्ष हैं । नाग-लोकका बाहरी दरवाजा सी योजन ऊँचा और पाँच योजन चौड़ा है । नागलोककी यह विशालता देखकर उत्तङ्क मुनि धीन (हतीत्साह) हो गये । अब उन्हें फिर कुण्डल पानेकी आशा न रही । इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया, जिसकी पूँछके बाल सफेद और काले तथा आँख और मुँह लाल थे । वह अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था । उसने उत्तङ्कसे कहा—'बेटा ! मेरे अपान-भाग्य (गुदा) में फूँक मारो । इससे तुम्हें कुण्डल मिल जायेंगे । ऐरावतका पुत्र तुम्हारे कुण्डल घूराकर ले आया है । मेरी गुदामें फूँक मारनेसे तुम घृणा न करो; क्योंकि गौतमके आश्रममें रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है ।'

उत्तङ्कने पूछा—गुरुदेवके आश्रमपर मैंने कभी आपका दर्शन किया है, इस बातका ज्ञान मुझे कैसे हो ? और आपके कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले मैं जो काम अनेकों बार कर चुका हूँ यह क्या है ? यह सुनना चाहता हूँ ।

घोड़ने कहा—ब्रह्मन् ! मैं तुम्हारे गुरुका भी गुरु जातवेदा अग्नि हूँ । तुमने अपने गुरुके लिये सदा पवित्र रहकर विधिवत् मेरी पूजा की है, इसलिये मैं तुम्हारा कल्याण कर्ष्या । अब तुम मेरे बताये अनुसार कार्य करो । विलम्ब न करो ।

अग्निदेवके ऐसा कहनेपर उत्तङ्कने उनकी आज्ञाका पालन किया । इससे प्रसन्न होकर वे नागलोकको भ्रम करनेके लिये प्रज्वलित हो उठे । जिस समय ब्रह्मण्यने फूँक मारी, उसी समय उस अरयदपधारी अग्निके रोम-रोमसे जोर-जोरसे धुआँ उठने लगा, जो नागलोकको भयभीत करनेवाला था । यह धुआँ इतना बढ़ा कि वहाँ कुछ सूक्ष्म नहीं पड़ता था । ऐरावतके धरमें हाहाकार मच गया । धार्मुकि आवि मुष्य-



मुष्य नागोंके घर धूमसे आच्छादित हो गये । उनमें अंधेरा छा गया । वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो कुहासासे ढके हुए पर्वत और बन हों । धुआँ सगणसे नागोंकी आँखें लाल हो गयीं और वे अग्निके तेजसे संतप्त होने लगे, अतः महामुनि उत्तङ्कका विचार जाननेके लिये सभी एकत्रित होकर उनके पास आये । उस समय उन अत्यन्त तेजस्वी महर्षिका दृढ़ निश्चय सुनकर उनकी आँखें भयसे कातर हो गयीं तथा समने उनका विधिवत् पूजन किया । अन्तमें सभी नाग झुड़े और बालकोंकी भांगे करके हाम जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले—'भववन् ! हमपर प्रसन्न हो जाइये (हम आपके कुण्डल लौटाये देते हैं) ।' इस प्रकार ब्राह्मण देवता-को प्रसन्न करके नागोंने उन्हें पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया और वे दिव्य कुण्डल भी वापस कर दिये । तदनन्तर नागोंने सम्मानित होकर उत्तङ्क मुनि अग्निदेवकी प्रवक्षिणा करके गुरुके आश्रमकी ओर चल दिये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने गुणवलीको वे दिव्य कुण्डल दे दिये और धार्मुकि आवि नागोंके यहाँ जो घटना घटी थी, वह सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गौतमसे कह सुनाया । जनमेजय । इस प्रकार तीनों लोकोंमें घूमकर महात्मा उत्तङ्कने वे मणिमय दिव्य कुण्डल प्राप्त किये थे । वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान् तपस्वी थे ।

भगवान् श्रीकृष्णका द्वारकामें जाकर सबसे मिलना और वसुदेवजीके पूछनेपर महाभारत युद्धका वृत्तान्त सुनाना

जनमेजयने पूछा—विप्रवर! उत्तङ्गको वरदान देकर महान् यशस्वी भगवान् श्रीकृष्णने क्या किया ?

वैशम्पायनजीने कहा—राजन्! उत्तङ्गको वरदान देकर अपने शीघ्रगामी घोड़ोंके द्वारा वे सात्यकिके साथ फिर अपनी पुरीकी ओर ही चल दिये और मार्गमें अनेकों सरोवर, नदियाँ, वन तथा पर्वत लाँघकर परम रम्य द्वारका नगरीमें पहुँच गये। उस समय वहाँ रैवतक पर्वतपर कोई बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। सात्यकिको साथ लिये भगवान् श्रीकृष्ण भी उस महोत्सवमें पधारे। उस समय रैवतक पर्वत नाना प्रकारके अद्भुत रत्नों, उनकी निधियों, सुन्दर सुवर्णकी मालाओं, भाँति-भाँतिके पुष्पों, वस्त्रों और कल्पवृक्षोंसे अलंकृत किया गया था। वृक्षके आकारमें सजाये हुए सोनेके दीप उस स्थानकी शोभाको और भी उद्दीप्त कर रहे थे। वहाँकी गुफाओं और झरनोंके स्थानोंमें दिनका-सा प्रकाश हो रहा था। वहाँ दानों, अंघों और अनाथोंको निरन्तर दान दिया जाता था। इससे उस पर्वतका वह परम कल्याण-मय उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था। उस पर्वतपर पुण्या-नुष्ठानके लिये अनेकों घर बने हुए थे, जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते थे। उन पुण्य गृहोंके कारण रैवतक गिरिकी देवलोकके समान शोभा हो रही थी। भगवान् श्रीकृष्णके आ जानेसे तो वह इन्द्रभवनको भी मात करने लगा।

तदनन्तर, सबसे मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित हो भगवान् श्रीकृष्ण और सात्यकि अपने-अपने भवनको गये। भगवान् बहुत दिनोंतक परदेशमें रहनेके बाद घर लौटे थे, इसलिये उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। उस समय उनके पास भोज, वृष्णि और अर्धकवंशी वीर मिलनेके लिये गये। उन्होंने सबका आदर-सत्कार करके उनकी कुशल पूछी और प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता-माताके चरणोंमें प्रणाम किया। उन दोनोंने उन्हें अपनी छातीसे लगा लिया और मीठे वचनोंसे सान्त्वना दी। इसके बाद सभी वृष्णिवंशी उनको घेरकर बैठ गये। महातेजस्वी श्रीकृष्ण जब हाथ-पैर धोकर विधाम ले चुके तो पिताके पूछनेपर उन्होंने महाभारतकी सारी घटना उनसे कह सुनायी।

वसुदेवजीने पूछा—बेटा! मैं प्रतिदिन बात-चीतके प्रसंगमें लोगीके मुँहसे सुनता रहा हूँ कि महाभारत-युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था; परंतु तुम तो उसे अपनी आँखों देख



आये हो और उसके स्वरूपसे भी भलीभाँति परिचित हो, इसलिये मुझसे उसका यथार्थ वर्णन करो। महात्मा पाण्डवोंका भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य आदिके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था? तथा दूसरे-दूसरे देशोंके रहनेवाले जो अस्त्रविद्यामें निपुण क्षत्रियवीर थे, उन्होंने किस तरह युद्ध किया था?

पिताके इस प्रकार पूछनेपर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी माताके सामने ही कौरव-वीरोंकी मृत्युसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनाने लगे।

श्रीकृष्णने कहा—पिताजी! महाभारत-युद्धमें काम आनेवाले क्षत्रिय महात्माओंके कर्म बड़े अद्भुत हैं। यदि विस्तारके साथ वर्णन किया जाय तो सौ वर्षोंमें भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती। इसलिये मैं थोड़ेमें मुख्य-मुख्य बातें बता रहा हूँ, उन्हें सुनिये। जैसे इन्द्र देवताओंकी सेनाके अधिनायक हैं, उसी प्रकार भीष्मजी कौरव-वीरोंके सेनापति बनाये गये थे। उनके अधीन ग्यारह अक्षौहिणी सेना थी। पाण्डव-पक्षकी सात अक्षौहिणी सेनाके अधिनायक शिखण्डी थे। सव्यसाची अर्जुन उनकी रक्षामें रहा करते थे। कौरव

और पाण्डवोंमें दस दिनोंतक बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ। दसवें दिन शिशुपदीने अर्जुनको सहायतासे भीमजीको अपने बहुतसे बाणोंका निशाना बनाया। उनसे घायल होकर भीमजी बाण-शय्यापर पड़े गये। जबतक दक्षिणाधन रहा है, वे मूर्ति-प्रतिका पालन करते हुए शर-शय्यापर सोते रहे हैं। उत्तरायण आनेपर ही उन्होंने मृत्यु स्वीकार की है।

भीमजीके घायल हो जानेके बाद अस्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव-पक्षके सेनापति बनाये गये। उस समय मरनेसे बची हुई नौ अशौहिणी सेना उन्हें सब ओरसे घेरकर पड़ी थी। वे स्वयं तो युद्धका हीसला रखते ही थे, कृपाचार्य और कर्ण भी उनकी रक्षाके लिये सावधान रहते थे। इधर महान् अस्त्रवेत्ता धृष्टद्युम्न पाण्डव-सेनाके अधिनायक हुए और भीमसेन उनकी रक्षा करने लगे। पाण्डव-सेनासे घिरे हुए महामनस्वी धीर धृष्टद्युम्नने द्रोणके द्वारा अपने पिताके अपमानका स्मरण करके उन्हें मार डालनेके लिये युद्धमें बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। धृष्टद्युम्न और द्रोणके उस भीषण संग्राममें नाना दिशाओंसे आये हुए घोर राजा अधिक संख्यामें मारे गये। उन दोनोंका वह दारण युद्ध पाँच दिनोंतक चलता रहा। अन्तमें द्रोणाचार्य बहुत थक गये और धृष्टद्युम्नके हाथसे उनकी मृत्यु हो गयी।

द्रोणके मारे जानेपर दुर्योधनकी सेनाका नेतृत्व कर्णके हाथमें आया। वह मरनेसे बची हुई पाँच अशौहिणी सेनाओंसे घिरकर युद्धके भंडारमें खड़ा हुआ। उस समय पाण्डवोंके पास तीन अशौहिणी सेना शेष थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। कर्ण दो दिनतक युद्ध करता रहा और दूसरे दिन आगमें कूदकर जलनेवाले पतंगोंकी तरह अर्जुनसे मिटकर मारा गया। कर्णकी मृत्युसे कौरवोंका उत्साह नष्ट हो गया। वे अपनी शक्ति को बँटें और तीन अशौहिणी सेनाओंसे घिरे हुए मद्राज शल्यको सेनापति बनाकर भंडारमें आये। पाण्डवोंके भी बहुतसे सैनिक और बाहन नष्ट हो गये थे। उनमें भी अब उत्साह नहीं रह गया था तो भी वे शेष बची हुई एक अशौहिणी सेनासे घिरे हुए युधिष्ठिरको आगे करके

शल्यका सामना करनेके लिये बढ़े। कुरुराज युधिष्ठिरने धीपहर होते-होते अत्यन्त दुःख पराक्रम दिखाकर मद्राज शल्यको मार गिराया।

शल्यके मारे जानेपर अमितपराक्रमी महामना सहदेवने कतहकी नौव डातनेवाले शकुनिको यममोक्षका अतिथि बनाया। उसकी मृत्यु ही जानेपर राजा दुर्योधन बहुत दुःखी हो गया। उसके बहुतसे सैनिक युद्धमें काम आ चुके थे; इसलिये वह अकेला ही हाथमें गदा लेकर रणभूमिसे भाग निकला। इधर महाप्रतापी भीमसेन श्रेष्ठमें भरकर उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने ईषामन नामक हृदयमें पानीके भीतर छिपे हुए दुर्योधनका पता लगा लिया और मरनेसे बची हुई सेनाके द्वारा उसपर चारों ओरसे घेरा डाल दिया। फिर पाँचों पाण्डव बड़ी प्रसन्नताके साथ ताताबमें बैठे हुए दुर्योधनके पास जा पहुँचे। उस समय भीमसेनने उसे अपने धार्याणिके द्वारा खूब पीड़ित किया। उनके कट्टे बधनोंसे व्यथित होकर वह पानीसे बाहर निकल आया और हाथमें गदा से युद्धके लिये तैयार हो गया। सब महाबली भीमसेनने सब राजाओंके देखते-देखते पराक्रम करके उसे मार डाला। तदनन्तर, जब पाण्डवोंकी सेना अपनी छावनीमें निरिबन्धन हो रही थी, उसी समय द्रोणयुव अरवस्थामाने अपने पिताके बधको न सह सकनेके कारण आक्रमण किया और सबको सोतेमें ही मार डाला। इस घमासानमें पाण्डवोंके पुत्र, सैनिक और मित्र सब कालके प्राप्त बन गये। भेरे और सायकिके साथ केवल पाँच पाण्डव बचे हुए हैं। कौरवोंके पराजित कृपाचार्य, कृतवर्मा और आश्वत्थामा जीवित हैं। पाण्डवोंका आश्रय लेनेके कारण धृतराष्ट्र-युज्युपुत्रको भी जान बघ गयी है। यन्धु-आश्वत्थसहित कौरवराज दुर्योधन के मारे जानेपर चित्तुर और सञ्जय धर्मराज युधिष्ठिरके आश्रयमें आ गये हैं। इस प्रकार यह युद्ध अठारह दिनोंतक जारी रहा है। उसमें जो राजा मारे गये हैं, उन्हें स्वर्गका निवास प्राप्त हुआ है।

वंशम्पाधनजी कहते हैं—महाराज। रौंगटे लड़े कर देनेवाली उस कथाको सुनकर दृष्टिगंगीतोग दुःस-शोकसे व्याकुल हो गये।

श्रीकृष्णका वसुदेवजीको अभिमन्यु-वधका हाल सुनाना और व्यासजीका उत्तरा तथा अर्जुनको समझाकर युधिष्ठिरको अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना

वंशम्पाधनजी कहते हैं—जनमेजय। पिताके सामने महामारत-युद्धका वृत्तान्त सुनते समय महाबुद्धिमान् श्रीकृष्णने अभिमन्यु-वधके प्रसंगको जान-बूझकर छोड़ दिया।

उन्होंने सोचा, पिताजी अपने नातीकी मृत्पुत्र मरान् अमङ्गलजनक समाचार सुनकर बड़ी दुःस-शोकमें डूब न जायें, इनका अनिष्ट न हो जाय, इसीसे वह प्रसंग न

सुभद्राने जब देखा कि मेरे पुत्रके निघनका होने नहीं बताया तो उसने याद दिलाते हुए ! मेरे अभिमन्युके वधकी बात भी तो बता

कहकर वह मूर्च्छित हो जमीनपर गिर पड़ी। अभिमन्युके मरनेका समाचार जानकर वसुदेवजी और शोकसे व्याकुल हो उठे। उन्होंने श्रीकृष्णसे उचकी आँखें तुम्हारेही-जैसी सुन्दर थीं। हाय ! उसकी आँखें तुम्हारेही-जैसी सुन्दर थीं। हाय ! रहते हुए वह शत्रुओंके हाथसे कैसे मारा गया ? इतना है समय पूरा होनेके पहले मनुष्यके लिये मरना ही कठिन होता है। तभी तो यह दारुण समाचार ही दुःखसे मेरे हृदयके सँकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। युद्धसे पीठ दिखाकर तो वह नहीं मारा गया ? मरते ही उसका मुख भयसे विकृत तो नहीं हो गया था ? कृष्ण ! तुम्हान् तेजस्वी बालक अपने बाल-स्वभावके अनुसार मेरे सामने विनोतभावसे अपनी वीरताकी प्रशंसा किया करता था। द्रोण, भीष्म और महाबली कर्णके साथ लोहा लेनेका हीसला रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य आदिने मिलकर उस बालकको कपटपूर्वक मार डाला हो ?

जनमेजय ! इस प्रकार अत्यन्त दुःखित होकर जब वसुदेवजी नाना प्रकारसे विलाप करने लगे तो उनकी अवस्था देखकर श्रीकृष्णको बड़ा दुःख हुआ। वे सान्त्वना देते हुए कहने लगे—'पिताजी ! अभिमन्युने संग्राममें आगे रहकर लोहा लिया और कभी भी अपना मुख विकृत नहीं किया। उस इस्तर युद्धमें उसने कभी पीठ नहीं दिखायी। लाखों राजाओंके समूहको मौतके घाट उतारकर वह द्रोण और कर्णका सामना करने लगा। उन दोनोंसे लड़ते-लड़ते जब बहुत थक गया, तब दुःशासनके पुत्रने उसके ऊपर विजय पायी। वह अकेला ही व्यूहमें लड़ रहा था। यदि निरन्तर उसे एक-एक वीरके ही साथ लोहा लेना पड़ता तो वज्रधारी इन्द्र भी उसको मार नहीं सकते थे, किंतु वहाँ तो बात ही दूसरी हो गयी। अर्जुन संशप्तकोंके साथ युद्ध करते हुए रणभूमिसे बहुत दूर हट गये थे। इस अवसरसे लाम उठाकर उस क्रोधमें भरे हुए बालकको द्रोणाचार्य आदि कई वीरोंने मिलकर चारों ओरसे घेर लिया। तथापि वह शत्रुओंका बड़ा भारी तंहार करके दुःशासनकुमारके हाथसे मारा गया। महापते ! अभिमन्युको निश्चय ही स्वर्गलोककी प्राप्ति हुई है, अतः आप उसके लिये शोक न कीजिये। पवित्र बुद्धिवाले साधुपुरुष संकटमें पड़नेपर भी शोकसे अधीर नहीं होते। जिसने इन्द्रके समान पराक्रमी द्रोण, कर्ण आदि वीरोंका युद्धमें

उठकर मुकाबला किया है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति क्यों नहीं होगी ? इसलिये आप शोक त्याग दीजिये। शत्रुओंके नगरोंपर विजय पानेवाला वीरवर अभिमन्यु शस्त्राघातसे पवित्र हुई उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है। उसके मरनेपर यह मेरी बहिन सुभद्रा जब दुःखसे व्याकुल होकर कुरुरीकी भाँति विलाप करने लगी तो कुन्तीने शनैः-शनैः इसे समझाते हुए कहा—'सुभद्रे ! श्रीकृष्ण, सत्यकि और अर्जुनका लाड़ला अभिमन्यु कालकी प्रेरणासे ही युद्धमें मारा गया है। मृत्यु-लोकमें जन्म लेनेवाले मनुष्योंका धर्म ही ऐसा है—उन्हें एक-न-एक दिन मृत्युके वशमें होना ही पड़ता है, इसलिये शोक न करो। यदुनन्दनि ! तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है। बेटे ! तुम महात्मा क्षत्रियोंके उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो, अतः शोक त्याग दो। तुम्हारी पुत्र-वधू उत्तरा गमंवती है। इसकी ओर देखकर चिन्ता छोड़ दो। यह शीघ्र ही अभिमन्युके पुत्रको जन्म देनेवाली है। इस प्रकार इसे समझा-बुझाकर कुन्तीने अभिमन्युके श्राद्धकी तैयारी करायी। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल-सहदेवको आज्ञा देकर नाना प्रकारके दान करवाये, तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको बहुत-सी गौएँ दान देकर विराटकुमारी उत्तरासे कहा—'बेटे ! अब तुम अपने पतिके लिये अधिक शोक न करो। अपने गमके बालककी रक्षापर ध्यान दो। यों कहकर कुन्तीदेवी चूप हो गयीं। इस समय उनकी आज्ञासे ही मैं सुभद्राको अपने साथ ले आया हूँ। पिताजी ! इस प्रकार आपके नातीकी मृत्यु हुई है। अब आप उसके लिये मनमें शोक-संताप न कीजिये।'

अपने पुत्र श्रीकृष्णकी बात सुनकर धर्मात्मा वसुदेवजीने शोक छोड़कर उत्तम विधिके अनुसार उसका श्राद्ध किया। इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने भी अपने भानजेकी श्राद्ध-क्रिया पूरी की। उन्होंने साठ लाख तेजस्वी ब्राह्मणोंके विधिपूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया और उन्हें वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया, जिससे उनकी धनविषयक तृष्णा दूर गयी। उस समय ब्राह्मणोंको हर्षसे रोमाञ्च हो आया। सुवर्ण, गौ, शय्या और वस्त्रका दान पाकर अभ्युदय होने आशीर्वाद देने लगे। श्रीकृष्णके साथ ही बलभद्र, सात और सत्यकने भी अभिमन्युका श्राद्ध किया। उधर, हस्तिनापुरमें विराटकुमारी उत्तराके वियोगके दुःखसे पीड़ित होकर बहुत दिनोंतक खान छोड़ दिया, इससे सब लोगोंको बड़ा कष्ट हुआ। उसके बालक उदरमें पड़ा-पड़ा क्षीण होने लगा। उस अवस्थाको दिव्य-दृष्टिसे जानकर महर्षि व्यास और कुन्ती तथा उत्तरासे मिलकर बोले—'बेटे

यह शोक छोड़ो, तुम्हारा पुत्र महान् तेजस्वी होगा। भगवान् श्रीकृष्णके प्रसाद तया मेरे आशीर्वादसे यह पाण्डवोंके

सम्पूर्ण पृथ्वीका पासन करेगा। तत्परवान् व्यासजीने धर्मराज युधिष्ठिरको सुनाते हुए अर्जुनकी ओर देखकर कहा— 'धनञ्जय। तुम्हारे शीघ्र ही पौत्र होनेवाता है, वह बड़ा सौभाग्यवाली और महामनस्वी होगा। सम्पूर्णपल्ल सम्पूर्ण पृथ्वीका वह धर्मके अनुसार वालन करेगा, इसलिये तुम अभिमन्युका शोक छोड़ दो। इस विषयमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। मेरा यह कथन सत्य होगा। युधिष्ठिरके धीर पुरुष भगवान् श्रीकृष्णने पहले जो कुछ कहा है, यह सब बँसा ही होगा। अभिमन्यु अपने पराक्रम से उपार्जित किये हुए देवताओंके असत्य स्वीकारमें गया है। तुम्हें या अन्य कुशलियोंको उस धीरके लिये शोक नहीं करना चाहिये।'



अपने पितामह व्यासजीके द्वारा इस प्रकार सम्प्रदाये जानेपर धर्मात्मा अर्जुनने शोक त्याग दिया। जनमेजय। उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित उत्तराके गर्भमें शुक्लसप्तके वन्दनाकी भाँति वृद्धि माने सगें। तदनन्तर, व्यासजीने 'धर्मराज युधिष्ठिरको अवयमेध-यज्ञ करनेकी आज्ञा की और जयं वहसि अन्तर्धान हो गये। व्यासजीकी बात सुनकर परम विद्वान् राजा युधिष्ठिरने भी हिमालयसे धन से आनेका विचार किया।

भाइयोंके साथ युधिष्ठिरका हिमालयपर जाना और वहाँसे सुवर्णराशि लेकर लौटना

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन्! महात्मा व्यासजीकी कही हुई बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने अवयमेध-यज्ञके सम्बन्धमें क्या किया? राजा महत्तने जो सुवर्णमय रत्न-राशि पृथ्वी-तलपर छोड़ रखी थी, उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया?

वैशम्पायनजीने कहा—राजन्! महर्षि व्यासजीकी बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव—इन सभी भाइयोंको बुलाकर कहा—'कन्युओ! महात्मा व्यासजी, अद्भुत पराक्रमी भीष्म तथा परम बुद्धिमान् श्रीकृष्णने सौहार्दवरा जो बातें बतायी हैं, वे सब सुमलोगिनि सुन ही ली हैं। अब मैं उनके अनुसार कार्य आरम्भ करना चाहता हूँ। ऐसा करनेसे वर्तमान और भविष्यकालमें भी हम सब लोगोंका हित होगा। व्यासजी ब्रह्मबादी महात्मा हैं, अतः उनकी बात परिणाममें हमारा कल्याण करनेवाली है। इस समय यह सारी पृथ्वी रत्न और धनसे हीन हो गयी है। अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करनेके लिये व्यासजीने हमें महत्तके धनका पता बताया है। यदि तुमलोग उस धनको पर्याप्त सभ्यो और उसे खे आनेकी अपनेमें सामर्थ्य

बेखो तो व्यासजीकी आज्ञा मानकर धर्मतः उसे प्राप्त करनेका यत्न करो अथवा भीमसेन! सुभ भोलो, तुम्हारा इस सम्बन्धमें क्या विचार है?'

राजाके ऐसा बहनेपर भीमसेन हाथ जोड़कर बोले— 'महाबाहो! आपने व्यासजीके बताये हुए धनकी सानेके विषयमें जो कुछ कहा है, वह मुझे बहुत पसंद है। महाराज। यदि हमें महत्तका धन प्राप्त हो-जाय तो हमारा सारा काम ही बन जाय। हमलोग भगवान् शंकरकी प्रणाम करके उस धनकी ले आयेंगे। देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचरोंकी पूजा करके मन, वाणी और क्रियाके द्वारा उन्हें प्रसन्न करेंगे। फिर हमें निरन्तर ही उस धनकी प्राप्ति होगी। विषट् आकार धारण करनेवाले जो किन्नर उसकी रक्षामें निरुपल हैं, वे भी भगवान् शंकरके प्रसन्न होनेपर हमारे अधीन हो जायेंगे।'


भीमका कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन, नकुल और सहदेवने भी उनकी बातका समर्थन किया। तदनन्तर, सभी पाण्डवोंने रत्न सानेका निरन्तर करके शुभ दिन एवं शुभवर्तक नक्षत्रमें सेनाको यात्रा-

के लिये तैयार होनेकी आज्ञा दी। फिर ब्राह्मणोंसे स्वस्ति-वाचन करारकर देवश्रेष्ठ महेश्वरकी पूजा करके वे स्वयं भी प्रसन्नताके साथ चलनेको उद्यत हुए। उनकी यात्राके समय नगरनिवासी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने प्रसन्नचित्तसे मङ्गल-पाठ किया। इसके बाद पाण्डवोंने अग्निसहित ब्राह्मणोंको प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की; गान्धारीसहित राजा धृतराष्ट्र और कुन्तीसे आज्ञा ली तथा धृतराष्ट्र-पुत्र युयुत्सुको राजधानीकी रक्षाके लिये छोड़कर स्वयं बाहर प्रस्थान किया। मार्गमें बहुत-से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिरको विजयसूचक आशीर्वाद देते और वे उन्हें यथोचितरूपसे स्वीकार करते थे। राजाके पीछे-पीछे बहुत-से सैनिक चल रहे थे। उनके कोलाहलसे सारा आकाश गूँज उठता था। अनेकों सरोवरों, नदियों, वनों और उपवनोंको लाँघकर महाराज युधिष्ठिर उस पर्वतके पास जा पहुँचे, जहाँ राजा मरुतका रक्खा हुआ उत्तम द्रव्य संचित था। वहाँ समतल एवं सुखद स्थान देखकर राजाने तप, विद्या और इन्द्रिय-संयमसे युक्त ब्राह्मणों एवं वेद-वेदाङ्गके पारगामी विद्वान् राजपुरोहित धौम्य मुनिको आगे रखकर सैनिकोंके साथ पड़ाव डाला। तत्पश्चात् ब्राह्मणों और पुरोहितसहित समस्त क्षत्रियोंने विधिपूर्वक शान्तिपाठ किया और राजा तथा उनके मन्त्रियोंको बीचमें रखकर स्वयं चारों ओरसे उन्हें घेरकर निवास किया। ब्राह्मणोंने छः मार्ग और नौ चौकवाली छावनी बनवायी थी तथा उन्होंने (छावनीसे अलग) मतवाले गजराजोंके रहनेके लिये भी स्थानका विधिवत् प्रबन्ध किया था। यह सब व्यवस्था करा लेनेके बाद राजा युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंसे कहा—‘द्विजेन्द्र-गण! इस कार्यके लिये कोई शुभ दिन और शुभ नक्षत्र देखकर आपलोग जैसा उचित समझें वैसा करें।’ राजाकी बात सुनकर उनका प्रिय करनेकी इच्छावाले पुरोहित और ब्राह्मण बोले—‘राजन्! आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुभ दिन है; अतः आजसे ही हमें शुभ कार्यकी सिद्धिका प्रयत्न करना चाहिये। हमलोग तो आज केवल जल पीकर रहेंगे और आपको भी अपने भाइयोंसहित आज उपवास करना चाहिये।’ ब्राह्मणोंका वचन सुनकर सभी पाण्डवोंने रातमें उपवास किया और कुशके आसनोपर बैठकर श्रद्धाके साथ ब्राह्मणोंकी बातें सुनते हुए रात्रि व्यतीत की। तत्पश्चात् जब निर्मल प्रभातका उदय हुआ तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने धर्मनन्दन राजा युधिष्ठिरसे कहा—‘राजन्! अब आप भगवान् शंकरको पूजा चढ़ाइये, उन्हें नैवेद्य अर्पण करके हमें अपने कार्यके लिये उद्योग करना चाहिये।’

ब्राह्मणोंकी आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिरने पहले शास्त्रीय विधिके अनुसार भगवान् शिवको नैवेद्य अर्पण किया।

तत्पश्चात् उनके पुरोहित शिवके पार्षदोंको, यक्षराज कुबेर-को, मणिमद्भको तथा अन्यान्य यक्षों एवं भूतोंके अधिपतियोंको खिचड़ी, तिलमिश्रित जल और भात घड़ोंमें भरकर भेंट किये। तदनन्तर, राजाने ब्राह्मणोंको हजारों गौएँ दान कीं। देवाधिदेव महादेवजीका वह स्थान धूपोंकी सुगन्धसे परिपूर्ण और फूलोंसे अलंकृत होकर बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। इस प्रकार भगवान् शिव और उनके पार्षदोंकी पूजा करके महर्षि व्यासको आगे लिये राजा युधिष्ठिर उस स्थानको गये, जहाँ वह सुवर्णराशि संचित थी। वहाँ उन्होंने भौतिक-भौतिके फूल, मालपूआ तथा खिचड़ी आदिके द्वारा धनपति कुबेरकी पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात् उन्होंने सामग्रियोंसे शङ्ख आदि निधियों और समस्त निधिपालोंका पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा स्वस्तिवाचन कराया।

ब्राह्मणोंके पुण्याह-घोषसे महान् तेजको प्राप्त होकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धनको खुदवाना आरम्भ किया। थोड़ी ही देरमें सोनेके बने हुए अनेकों प्रकारके सुन्दर-सुन्दर कठोते, सुराही, गड्डुआ, कड़ाह, कलश, फटोरे तथा और भी विचित्र-विचित्र ढंगके हजारों बर्तन निकल आये। उनको रखनेके लिये बड़ी-बड़ी सँदूकें लायी गयी थीं। एक-एक सँदूकमें बंद किये हुए बर्तनोंका बोझ आधा-आधा भार होता था। उन सबको ढोनेके लिये राजाके साथ बहुत-सी सवारियाँ भी आयी थीं। साठ हजार ऊँट,



एक करोड़ बीस लाख घोड़े, एक लाख हाथी, एक लाख रथ, एक लाख छकड़े और जतनी ही हथियारों थीं। गर्धों और मनुष्योंकी तो गिनती ही नहीं थी। युधिष्ठिरने वही जितना धन खुदवाया था, उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक अंठपर आठ हजार, प्रत्येक छकड़े-पर सोलह हजार और प्रत्येक हाथीपर चौबीस हजार सुवर्णका भार लावा था। (इसी प्रकार घोड़े, गदहों और मनुष्योंपर

यथासमय भार रतवाया था।) इन सब धातुओंपर धन लदवाकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने पुनः महादेवजीका पूजन किया और ध्यासजोको आता लेकर पुरोहित धीमन् मुनिको आगे करके हस्तिनापुरको प्रस्थान किया। वे (बाहनोंपर बोझ अधिक होनेके कारण) दो-दो काँतपर मुकाम देते जाते थे। द्रव्यके भारसे कष्ट पानी हुई यह विगास सेना पाण्डुपौत्रा हृष्ये बढ़ती हुई बड़ी कठिनाईसे नगरको ओर बढ़ रही थी।

श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें आना और उत्तराके मृत बालकको जितानेके लिये कुन्ती आदिकी उनसे प्रायना

वंशम्पादनजी कहते हैं—जनमेजय ! इसी बीचमें भगवान् श्रीकृष्ण भी युधिष्ठिरकी साय सेकर हस्तिनापुर आ गये। उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिरने जैसी बात कही थी, उसके अनुसार अश्वमेध यज्ञका समय निकट जानकर वे पहलेसे ही उपस्थित हो गये। भगवान्के साथ श्विमणोनन्दन प्रद्युम्न, सात्यकि, चारुदेव्य, साम्ब, गद, कृतवर्मा, सारण, निशठ, उल्बुक, बलदेवजी तथा जिनके पति पुत्रमें भारे गये थे उन अनाथ क्षत्राणियोंको दास्य बंधानेके लिये आये थे। इनके आनेका समाचार पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुरजोने आगे बढ़कर विधिवत् स्वागत किया। महान् तेजस्वी पुण्योत्तम श्रीकृष्ण अपने बन्धु-बाण्डवों-सहित वहाँ पुपुत्सु और विदुरजोके साथ रहने लगे। जनमेजय ! युधिष्ठिरकी हस्तिनापुरमें रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परीक्षितका जन्म हुआ। वे प्रह्लादसे पीडित होनेके कारण चेष्टाहीन मूर्खके रूपमें उत्पन्न हुए थे। पहले तो पुत्र-जन्मके समाचारसे सबको अपार हर्ष हुआ, किंतु जगमें जीवनका कोई चिह्न न देखकर तत्काल शोकका समुद्र उमड़ पड़ा।

श्रीकृष्णने जब यह हाल सुना तो वे सात्यकिकी साय लिये सुरत अन्त-पुरमें जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी धुआ कुन्तीको बड़े वेगसे आती देखा, जो बारंबार उन्हीका नाम लेकर 'बौड़े, बौड़े' की पुकार मचा रही थीं। उनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बन्धु-बाण्डवोंकी स्त्रियाँ भी थीं, जो बड़े कदम स्वरसे बिलल-बिललकर रो रही थीं। श्रीकृष्णके निकट पहुँचते ही कुन्तीकी अँखिसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी। वे गद्गद वाणीमें बोली—'बासुदेव ! तुमको पाकर ही तुम्हारी माता देवकी उत्तम पुत्रबाली मानी जाती हैं। तुम्हीं हमारे अवलम्बन और तुम्हीं हमलोगोंके आधार हो। हमारे इस कुत्तकी रसाका भार तुम्हारे ही ऊपर है।

देखो, यह तुम्हारे भानजे अमिमन्सुका बासक है, जो अश्व-त्थामाके प्रयत्नसे मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ है। बेबाब ! इसको जीवन-दान दो। अश्वत्थामाने जब सोरके बाणका प्रयोग किया था, उस समय तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तराके मरे हुए बालकको भी जीवित कर दूँगा। बेटा ! यही वह बालक है, जो मरा हुआ ही पैदा हुआ है; इसके ऊपर दृष्टि डालो। इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा और द्रौपदीसहित मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेवके भी प्राण बचाओ। मेरे और पाण्डवोंके प्राण इस बातके ही अधीन हैं। मेरे पति तथा श्वगुरुके पिण्डका भी यही सहारा है। इसे जीवन देकर परलोकवासी अमिमन्सु-का भी प्रिय करो। श्रीकृष्ण ! मेरी बहुरानी उत्तरा अमिमन्सुकी पहलेकी कही हुई एक बात, अत्यन्त प्रिय होनेके कारण, बार-बार बुझाया करती है। अमिमन्सुने कभी उत्तरासे स्नेहवाक्य कहा था—'हृदयामी ! तुम्हारा पुत्र मेरे मामाके यहाँ—युधिष्ठिर एवं अण्डकोके कुलमें जाकर धनुषेंद, माना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र तथा सम्पूर्ण नीतिशास्त्रकी शिक्षा प्राप्त करेगा।' सुभद्रातुम्हारी कही हुई यह बात निःसंदेह सत्य हीनी चाहिये। मधुसूदन ! इस कुत्तकी भलाईके लिये हम सब तुम्हारे पंरों पढ़कर मोक्ष माँगती हैं; इस बातको जिलाकर बुद्धबाणका हृदयान करो।'

यों बहकर कुन्तीदेवी कुत्तसे ध्यातुस हो ज्योतपर गिर पड़ीं। तब श्रीकृष्णने उन्हें सहारा देकर बिद्यामा और सायनवापुत्रं चक्रोंसे छेड़ बंधाने लगे। कुन्तीके बैठ जानेपर सुभद्रा अपने भाई श्रीकृष्णकी ओर देस चूट-अट्टर रीने लगी और कुत्तसे आतं होकर बोनी—'बेटा ! अपने ताता पापके इस पीरको दशा तो देखो। अमिमन्सु का बेटा क-

लेनेके साथ ही मर गया—इस बातको सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे? भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेव भी क्या सोचेंगे? आज द्रोणपुत्रने पाण्डवोंका सर्वस्व लूट लिया। श्रीकृष्ण! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अभिमन्यु पाँचों भाइयोंका प्यारा था। उसके पुत्रकी यह हालत सुनकर अश्वत्थामाके अस्त्रसे पराजित हुए पाण्डव क्या कहेंगे? अभिमन्युका पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो, इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है? भैया! मैं तुम्हारे चरणोंमें पड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। कुन्ती और द्रौपदी भी तुम्हारे पैरोंपर पड़ी हुई हैं। इन सबको ओर देखो। जब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पाण्डवोंके गर्भकी हत्याका प्रयत्न कर रहा था, उस समय तुमने क्रोधमें भरकर उससे कहा था—‘ब्राह्मणाधम! तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने पायेगी। मैं अर्जुनके पाँचोंको अपने प्रभावसे जीवित कर दूँगा’—यह बात मैं सुन चुकी हूँ और तुम्हारे बलको भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिये चाहती हूँ कि तुम प्रसन्न हो

जाओ, जिससे अभिमन्युके पुत्रको जीवन मिले। यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो निश्चय जानो मैं प्राण दे दूँगी। यदि तुम्हारे जीते-जी अभिमन्युके बालकको जीवन-दान न मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे? जैसे बादल पानी बरसाकर सूखी खेतोंको भी हरी-भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अभिमन्युके मरे हुए बालकको जीवित कर दो। केशव! तुम धर्मात्मा, सत्यवादी और सत्य-पराक्रमी हो, अतः तुम्हें अपनी कही हुई वह बात अवश्य पूरी करनी चाहिये। श्रीकृष्ण! तुम चाहो तो मृत्युके मुखमें पड़े हुए तीनों लोकोंको जिला सकते हो। फिर अपने भानजेके इस प्यारे पुत्रको जीवित करना तुम्हारे लिये कौन बड़ी बात है? मैं तुम्हारे प्रभावको जानती हूँ। इसीलिये प्रार्थना करती हूँ कि पाण्डवोंपर अनुग्रह करो। भैया! तुम्हारी बड़ी बाँह है। तुम यह समझकर कि यह मेरी बहन है अथवा जिसका वेटा मारा गया है वह दुखिया माँ है या शरणमें आयी हुई एक असहाय अवला है, मेरे ऊपर दया करो।’

उत्तराकी विलापपूर्ण प्रार्थना और श्रीकृष्णका परीक्षितको जीवित कर देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! सुभद्राके ऐसा कहनेपर भगवान्ने उसे प्रसन्न करते हुए कहा—‘अच्छा, ऐसा ही कल्लेगा।’ जैसे धूपसे तपे हुए मनुष्यको जलसे नहा लेनेपर शान्ति मिल जाती है उसी प्रकार भगवान् कृष्णका यह अमृतमय वचन सुनकर अन्तःपुरकी स्त्रियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनन्तर श्रीकृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिताके जन्मस्थान-सूतिकागारमें गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह घर सफेद फूलोंकी मालाओंसे विधिपूर्वक सजाया गया है। उसके चारों ओर जलसे भरे हुए कलश रखे गये हैं। तिनदुक नामक काण्डकी आग जल रही है, जिसमें घीकी आहुति की गयी है। यंत्र-तंत्र सरसों बिखरे हुए हैं। चमकते हुए तेज हथियार रखे हुए हैं और सब ओर आग प्रज्वलित की गयी है। सेवाके लिये बूढ़ी और युवती स्त्रियाँ मौजूद हैं तथा अपने-अपने कार्योंमें कुशल चतुर चिकित्सकगण भी विराजमान हैं। इन सबके अतिरिक्त राक्षसोंके भयका निवारण करनेवाले द्रव्योंका भी वहाँ संग्रह किया गया था। इस प्रकार सूतिकागृहको आवश्यक सामग्रियोंसे सम्पन्न देख भगवान् श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और साधुवाद देते हुए उस प्रबन्धको प्रशंसा करने लगे।

इसी समय द्रौपदी बड़ी तेजीके साथ उत्तराके पास जाकर बोली—‘कल्याणी! यह देखो, तुम्हारे श्वशुरतुल्य

अचिन्त्यात्मा, अपराजित एवं पुरातन ऋषि भगवान् मधुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं।’ यह सुनकर उत्तराने अपने आँसुओंको रोककर सारा शरीर वस्त्रोंसे ढक लिया। श्रीकृष्णके प्रति उसकी भगवद्-बुद्धि थी, इसलिये उन्हें आते देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हृदयसे करुण विलाप करती हुई गद्गद कण्ठसे बोली—‘जनार्दन! देखिये, आज मैं और मेरे पति दोनों ही संतानहीन हो गये। अभिमन्यु तो पहलेसे ही मृत्युको प्राप्त हो चुके हैं, अब मुझे भी पुत्रशोकसे मरी हुई ही समझिये। मधुसूदन! आपके चरणोंमें मस्तक रखकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझपर प्रसन्न हो जाइये और अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे दग्ध हुए मेरे बेटेको जिला दीजिये। हाय! इस गर्भके बालकको ब्रह्मास्त्रसे मार डालनेका क्रूरतापूर्ण कर्म करके न जाने दुर्बुद्धि अश्वत्थामाने क्या लाभ उठाया है? भगवन्! मैं आपके पैरों पड़कर इस बालकके प्राणोंकी भीख माँगती हूँ। यदि यह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी। इसको लेकर मैंने बड़ी-बड़ी आशाएँ बाँध रखी थीं; किंतु द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने उन सबपर पानी फेर दिया। अब मेरे जीनेका क्या प्रयोजन है? मेरी बड़ी साध थी कि अपने बच्चेको गोदमें लेकर आपके चरणोंमें प्रणाम करूँ, किंतु अब वह व्यर्थ हो गयी। मधुसूदन, चञ्चल नेत्रोंवाले अभिमन्युपर आपका बड़ा प्रेम था, उन्हींका

पूजा करनेकी आज्ञा दी। राजमार्ग नाना प्रकारके फूलोंसे अलंकृत किये गये। उस समय हवाके इशारेसे हस्तिनापुरमें चारों ओर पताकाएँ फहरा रही थीं।

पाण्डवोंके समीप आनेकी बात सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण अपने मित्रों और मन्त्रियोंके साथ उनसे मिलनेके लिये चले। उन सब लोगोंने आगे बढ़कर अगवानी की और सब एक दूसरेके साथ धर्मानुसार मिले। तत्पश्चात् पाण्डव और यदुवंशी वीरोंने एक साथ होकर हस्तिनापुरमें प्रवेश किया। उस समय घनका खजाना उनके आगे-आगे चल रहा था। पाण्डव अपने मित्रों और मन्त्रियोंसहित बहुत प्रसन्न थे। वे एकत्रित होकर सबसे पहले राजा धृतराष्ट्रके पास गये तथा सबने अपने-अपने नाम बताकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। धृतराष्ट्रसे मिलनेके बाद वे गान्धारी, कुन्ती और विदुरजीका सम्मान करते हुए युयुत्सुसे मिले। इसके बाद उन्होंने तुम्हारे पिताके जन्म-कालका अत्यन्त अद्भुत एवं आश्चर्यजनक समाचार सुना और भगवान् श्रीकृष्णके उस अलौकिक कर्मकी बात सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की।

इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यवतीनन्दन व्यासजी हस्तिनापुरमें पधारे। पाण्डवोंने उनका यथोचित पूजन किया और वृष्णि एवं अन्धकवंशी वीरोंके साथ वे उनकी सेवामें बैठ गये। फिर नाना प्रकारकी बातचीतके बाद धर्मनन्दन युधिष्ठिरने महर्षि व्याससे कहा—‘भगवन् ! आपकी कृपासे जो यह रत्न लाया गया है, उसका अश्वमेध-यज्ञमें उपयोग करना चाहता हूँ। इसके लिये आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षा है। हम सब लोग आप और भगवान् श्रीकृष्णके अधीन हैं।’

व्यासजीने कहा—राजन् ! मैं तुम्हें यज्ञके लिये

आज्ञा देता हूँ। अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हो, उसे आरम्भ करो। विधिपूर्वक दक्षिणा देकर अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान करो। अश्वमेध-यज्ञ सब पापोंसे छुटकारा बिलाने-वाला है। उसका अनुष्ठान करके तुम निःसंवेह पापसे मुक्त हो जाओगे।

व्यासजीके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ करनेका विचार किया। महर्षि व्यासकी आज्ञा लेकर उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके पास जाकर कहा—‘पुरुषोत्तम ! हम आपके ही प्रभावसे अपने अधिकारमें किये हुए उत्तम भोगोंका उपभोग कर रहे हैं। आपने ही अपने पराक्रम और बुद्धिके बलसे इस सम्पूर्ण पृथ्वीको जीता है, अतः आप ही यज्ञकी दीक्षा लेकर इसका आरम्भ कीजिये; क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। यदि आप यज्ञका अनुष्ठान करेंगे तो निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जायेंगे। आप ही यज्ञ, अक्षर, सर्वरूप, धर्म, प्रजापति और सम्पूर्ण मूर्तोंकी गति हैं—ऐसी मेरी निश्चित धारणा है।’

श्रीकृष्णने कहा—महाराज ! यह कथन आपके ही योग्य है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंको सहारा देनेवाले हैं; क्योंकि आप धर्मसे सुशोभित हैं। हमलोग आपके अङ्ग अथवा सहायक हैं तथा आपको अपना राजा एवं गुरु मानते हैं। इसलिये आप हमारी अनुमतिसे स्वयं ही इस यज्ञका अनुष्ठान कीजिये तथा हम-लोगोंमेंसे जिसको जिस कामपर लगाना चाहते हों, उसे उस काममें लगनेकी आज्ञा दीजिये। मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो कुछ कहेंगे, वह सब करूँगा। आपकेद्वारा यज्ञ होनेपर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेवको भी यज्ञानुष्ठानका फल मिलेगा।

व्यासजीकी आज्ञासे अश्वमेध-यज्ञके लिये छोड़े हुए अश्वकी रक्षाके लिये अर्जुनकी नियुक्ति और घोड़ेके पीछे उनका सेनासहित जाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने व्यासजीको सम्बोधित करके कहा—‘भगवन् ! जब आपकी यज्ञ आरम्भ करनेका ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा दें; क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है।’

व्यासजीने कहा—राजन् ! जब यज्ञका समय आयेगा, उस समय मैं, पैल और याज्ञवल्क्य—ये सब आकर विधिपूर्वक तुम्हारा यज्ञ सन्व्यस्त करेंगे। चैत्रकी पूर्णिमाको तुम्हें

यज्ञकी दीक्षा दी जायगी, तबतक तुम उसके लिये सामग्री एकत्रित करो। अश्वविद्याके ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञके लिये पवित्र अश्वकी परीक्षा करें। जो अश्व निश्चित हो, उसे शास्त्रीय विधिके अनुसार छोड़ा जाय और वह तुम्हारे देवीप्यमान यज्ञकी फँलाता हुआ समुद्रपर्यन्त समस्त पृथ्वीपर घूमता फिरे।

यह सुनकर राजा युधिष्ठिरने, ‘बहुत अच्छा’ कहकर व्यासजीके कथनानुसार सारा कार्य किया। उन्होंने मनमें

जिन-जिन सामानोंको एकत्रित करनेका संकल्प किया था, उन सबको जुटा लेनेके बाद महर्षि ध्यासको सूचना दी। तब ध्यासजीने कहा—'राजन्! हमसोग यथासमय उत्तम योग आनेपर तुम्हें वीणा बजनेको तैयार हैं। इस बीचमें तुम सोनेके 'स्वयं' और 'कूर्च' बनवा लो तथा और भी जो सुवर्णमय सामान आवश्यक हों, उन्हें तैयार करा डालो। आज शास्त्रीय विधिसे अनुसारा यथासम्बन्धी अरवको क्रमशः पृथ्वी-पर धूमनेके लिये छोड़ना चाहिये तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे यह सुरक्षितरूपसे सब ओर विचर सके।'


युधिष्ठिरने कहा—'भूने! यह घोड़ा उपस्थित है, इसको किस तरह छोड़ा जाय जिससे यह समूची पृथ्वीमें इच्छानुसार घूम आवे। इसकी व्यवस्था आप ही कीजिये तथा यह भी बताइये कि पृथ्वीपर स्वेच्छानुसार विचरनेवाले इस घोड़ेकी रक्षामें किसको नियुक्त किया जाय ?

जन्मेजय। युधिष्ठिरके यों पूछनेपर महर्षि ध्यास बोले—'राजन्! अर्जुन सब धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ है। वे विजयमें उत्साह रखनेवाले, सहनशील और धैर्यवान् हैं। अतः वे ही इस घोड़ेकी रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने निवात-कवचोंका नारा किया है, वे सम्पूर्ण भूमण्डलको जीतनेकी शक्ति रखते हैं तथा उनके पास दिव्य अस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य तरफस हैं, अतः उन्हें ही इस घोड़ेके पीछे-पीछे जाना चाहिये। वे धर्म और अर्थमें कुशल तथा सम्पूर्ण विद्याओंमें प्रवीण हैं, इसलिये शास्त्रीय विधिसे अनुसारा घोड़ेका संचालन करेंगे। अत्यन्त तेजस्वी और परम पराक्रमी भीमसेन तथा नहुल—ये दोनों वीर राज्यकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हैं, अतः ये राज्य कार्य देखें और परम मुद्धिमान् सहादेव कुटुम्ब-पालन-सम्बन्धी समस्त कार्योंकी देख-भाल करें।

ध्यासजीके इस प्रकार बतलानेपर युधिष्ठिरने सब काम वंसा ही किया और अर्जुनको बुलाकर घोड़ेके विषयमें यों संदेश दिया—'वीर अर्जुन! यहाँ आओ। तुम्हारे ऊपर इस घोड़ेकी रक्षाका भार दिया जाता है। इसका विधिघन्तु पालन करो। तुम्हीं इसकी रक्षा करनेमें समर्थ हो। दूसरे किसी मनुष्यके द्वारा यह कार्य होना असम्भव है। महाबाहो! एक बातका ध्यान रखना। अरवकी रक्षाके समय जो राजा तुम्हारा सामना करने आवें, उनके साथ भरसक युद्ध न करना पड़े, ऐसा प्रयत्न करना तथा भेरे यत्नका समाचार सब राजाओंको बतलाकर कहना कि 'आपलोग यथासमय यत्नमें पधारो।'

अपने भाई सत्यसाची अर्जुनको इस प्रकार समझा-बुझाकर धर्मार्थका राजा युधिष्ठिरने भीमसेन और नहुलको नगरकी

रक्षाका भार सौंप दिया और महाराज युवराजपुत्री सम्पत्ति लेकर सहादेवको कुटुम्ब-पालनके काममें नियुक्त किया। सबनन्तर, जब वीणा बजनेका समय हुआ तो ध्यास भादि महान् श्रुतिजोने राजाको विधिपूर्वक यज्ञकी वीणा की ओर यज्ञके लिये नियत क्रिये हुए अरवको स्वयं बहूप्यारी ध्यासजीने शास्त्रीय विधिसे अनुसारा छोड़ा। फिर धर्मराज की आशासे अर्जुनने उस घोड़ेका अनुसरण किया। उसका रंग वृष्णसार मृगके समान श्याम था। अरवके पीछे चलते समय अर्जुन



गाण्डोव-धनुषको टंकारते जाते थे। उन्होंने अपने हाथोंमें गोधाके चमड़ेसे बने हुए दस्ताने पहन रखे थे तथा वे बड़ी प्रमत्तताके साथ अरवका अनुसरण कर रहे थे। अर्जुनकी यात्राके समय अज्जैसे सेकर बुद्धोक्त सारा हस्तिनापुर उनके दर्शनके लिये उमड़ आया। यज्ञके घोड़े और जसके पीछे जानेवाले धनुषज्यको देखनेकी इच्छासे सोर्गाँवी इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि आपसकी टक्कर-मुक्करीसे लम्बे बदनमें पसीने निकल आये। उस समय मनुष्योंके शोलाहस्तें आसारा और दिखाएँ गुंज उठीं। उदारमुद्धि अर्जुनने गुना, बहुत-से लोग कह रहे थे—'भारत! तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखसे जाओ और पुनः बुलासपूर्वक यहाँ मौट आओ।' दूसरे बतते थे—'अर्जुनकी यात्रा सुखमय हो, इन्हें मार्ग

कोई कष्ट न हो, किसी प्रकारका भय न हो। ये निश्चय ही कुशलपूर्वक लौटेंगे और उस समय फिर हम इनका दर्शन करेंगे।' इस प्रकार पुरुषों और स्त्रियोंकी कही हुई मीठी-मीठी बातें वारंवार अर्जुनके कानोंमें पड़ती थीं। याज्ञवल्क्य मुनिके एक विद्वान् शिष्य, जो यज्ञ-कर्ममें चतुर तथा वेदोंमें पारंगत थे, विघ्न-शान्तिके लिये अर्जुनके साथ-साथ गये। उनके सिवा और भी बहुत-से वेदवेत्ता ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोंने धर्मराजकी आज्ञासे पार्थका अनुसरण किया। वह अश्व पाण्डवोंके द्वारा अस्त्र-बलसे जीती हुई पृथ्वीके सब देशोंमें इच्छानुसार विचरने लगा। उन देशोंमें अर्जुनको शत्रुओंके साथ जो बड़े-बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े, उनकी कथा

सुना रहा हूँ। यज्ञका घोड़ा पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता हुआ सबसे पहले उत्तर दिशाकी ओर गया। फिर अनेकों राज्योंमें घूमता-घामता पूर्व दिशाकी ओर मुड़ गया। महारथी अर्जुन भी धीरे-धीरे अश्वके पीछे-पीछे चले जा रहे थे। उस समय जिनके बन्धु-बान्धव मारे गये थे ऐसे जिन-जिन राजाओंके साथ अर्जुनको युद्ध करना पड़ा, उनकी गणना असम्भव है। तलवार और धनुष धारण करनेवाले बहुत-से किरात, यवन और म्लेच्छ, जो पहले महाभारत-युद्धमें पाण्डवोंद्वारा परास्त किये गये थे, अर्जुनका सामना करनेके लिये आये। इस तरह विभिन्न देशोंके राजाओंके साथ अर्जुनको कई बार युद्ध करना पड़ा।

अर्जुनके द्वारा त्रिगर्ताकी पराजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! कुक्षेत्रके युद्धमें जो त्रिगर्त वीर मारे गये थे, उनके महारथी पुत्रों और पौत्रोंने अर्जुनके साथ वर वाँध लिया था। त्रिगर्त देशमें जानेपर अर्जुनका उनके साथ घोर संग्राम हुआ। 'पाण्डवोंका यज्ञ-सम्बन्धी अश्व हमारे राज्यकी सीमामें आ पहुँचा है' यह जानकर त्रिगर्त वीर क्रोध आदिसे सुसज्जित हो पीठपर तरकस बाँधे अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए रथपर बैठकर निकले और उस अश्वको चारों ओरसे घेरकर पकड़नेका उद्योग करने लगे। अर्जुन उनके मनका भाव समझ गये और उन्हें शान्तिपूर्वक समझा-बुझाकर रोकने लगे, किन्तु त्रिगर्तोंने उनके वचनोंकी अवहेलना करके उनके ऊपर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया। अर्जुनने वारंवार मना किया और हँसते-हँसते कहा—'पापियो! लौट जाओ! जीवनकी रक्षामें ही तुम्हारा कल्याण है।' उन्होंने ऐसा इसलिये कहा कि चलते समय धर्मराज युधिष्ठिरने यह कहकर मना कर दिया था कि 'जिन राजाओंके भाई-बन्धु कुक्षेत्रकी लड़ाईमें मारे गये हैं, उनका वध नहीं करना चाहिये।' धर्मराजको इस आज्ञाको मान करके ही अर्जुनने त्रिगर्ताको लौट जानेकी आज्ञा दी, तथापि वे लौटने-को तैयार न हुए। तब त्रिगर्तराज सूर्यवर्माको बाणसमूहोंसे बाँधकर अर्जुन हँसने लगे। यह देखकर त्रिगर्तदेशीय वीर रथकी घरघराहट और पहियोंकी आवाजसे सारी दिशाओंको गुञ्जायमान करते हुए घनञ्जयपर दूट पड़े। सूर्यवर्माने अपना हस्तालाघव दिखाते हुए अर्जुनको एक सौ बाणोंका निशाना बनाया तथा उसके अनुयायियोंमें जो महान् धनुर्धर वीर थे, वे भी अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे; किन्तु पाण्डुनन्दन अर्जुनने अपनी प्रत्यञ्चासे

छोड़े हुए बाणोंके द्वारा शत्रुओंके समस्त बाणोंको काट डाला। वे कटे हुए बाण टुकड़े-टुकड़े होकर जमीनपर गिर पड़े।

(सूर्यवर्माके परास्त होनेपर) उसका छोटा भाई केतुवर्मा, जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाईके लिये यशस्वी अर्जुनके साथ युद्ध करने लगा। केतुवर्माको धावा करता देख वीरवर अर्जुनने उसे तीखे तीरोंसे मार डाला। उसके मारे जानेपर महारथी धृतवर्मा रथपर सवार हो शीघ्र ही आ धमका और अर्जुनपर बाणोंकी झड़ी लगाने लगा। धृतवर्मा अभी बालक था तो भी उसकी ऐसी फुर्ती देख महामतेजस्वी अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई। वह कब बाण हाथमें लेता है और कब उसे धनुषपर चढ़ाता है—इसको अर्जुन भी नहीं देख पाते थे। केवल उसकी बाणवर्षा ही उनकी दृष्टिमें पड़ती थी। उन्होंने संग्राम-भूमिमें थोड़ी देरतक मन-ही-मन धृतवर्माकी प्रशंसा की और युद्धमें उसका हाँसला बढ़ाने लगे। यद्यपि धृतवर्मा साँपके समान क्रोधमें भरा हुआ था तथापि कौरव-वीर अर्जुन प्रेमके साथ हँसकर बचा जाते थे। उन्होंने उसके प्राण नहीं लिये। इस प्रकार अमिततेजस्वी अर्जुनके द्वारा जान-बूझकर छोड़ दिये जानेपर धृतवर्माने उनके ऊपर एक अत्यन्त प्रज्वलित बाण चलाया। उससे अर्जुनके हाथमें बड़ी चोट आयी, उसमें गहरा घाव हो गया। अर्जुनकी चक्कर आ गया और उनका गाण्डीव धनुष हाथसे छूटकर जमीनपर जा पड़ा। यह देखकर धृतवर्मा ठहाका मारकर हँसने लगा। अर्जुनने अपने हाथका रक्त पोंछ डाला और क्रोधमें भरकर पुनः उस धनुषको हाथमें लेकर बाणोंकी वर्षा आरम्भ की। तब त्रिगर्तदेशीय योद्धाओंने चारों ओरसे आकर अर्जुनकी घेर लिया। यह देखकर अर्जुनने वज्रके समान लोहमय बाणोंकी

धर्षा करके उनके अठारह घोड़ाओंकी मौतके घाट उतार दिया। फिर तो त्रिगर्त घोड़ाओंमें भगवड़ पड़ गयी। इधर अर्जुनने भीर-भीरसे हँसकर उन्हें सर्पाकार बाणोंसे मारना आरम्भ किया। उनके बाणोंसे पीड़ित होकर त्रिगर्त महारथियोंकी हिम्मत टूट गयी और वे चारों विशाओंकी भाग चले। कितनोंहीने भयभीत होकर अर्जुनसे कहा—'पाय !

हम सब तुम्हारे आत्माकारी सेवक हैं और सदा तुम्हारे अर्जुन रहेंगे। कीरवनन्दन ! हम विनोत बातकी भाँति तुम्हारे सामने खड़े हैं। आता वो, कौन-सा कार्य करें ? हम तुम्हारे समस्त प्रिय कार्य करनेकी तैयारी हैं।' उनकी ये बातें सुनकर अर्जुनने कहा—'राजाओ ! यदि भीवनकी रक्षा चाहते हो तो हमारा शासन स्वीकार करो !'

प्राग्ज्योतिषपुरमें वज्रदत्तके साथ अर्जुनका युद्ध और वज्रदत्तकी पराजय

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इसके बाद यत्नका घोड़ा प्राग्ज्योतिषपुरके पास आकर बिचरने लगा। यहाँ भगवत्तका पुत्र वज्रदत्त राग्य करता था। उसने जब सुना कि पाण्डवोंका घोड़ा मेरे राज्यकी सीमामें आ गया है तो नगरसे बाहर निकलकर उस घोड़ेको पकड़ लिया और उसे साथ लेकर नगरकी ओर लौटने लगा। यह देख महाबाहु अर्जुनने गाण्डीव-धनुषपर टंकर देते हुए सहसा उसपर धावा किया। गाण्डीवसे छूटे हुए बाणोंके प्रहारसे व्याकुल होकर राजा वज्रदत्तने घोड़ेको तो छोड़ दिया और स्वयं नगरमें प्रवेश करके कवच आविसे सुसज्जित ही विशाल गजराजपर सवार होकर यह युद्धके लिये बाहर निकला। महारथी अर्जुनके पास आकर उसने बालवाण्य और मूर्खताके कारण उन्हें युद्धके लिये तत्तकारा। वज्रदत्तका हाथी पर्वतके समान ऊँचा था। उसके गण्डस्थलोंमें भवकी धारा बह रही थी। उसे शास्त्रीय विधिसे अनुसार युद्धकी शिक्षा दी गयी थी। वह स्वामीके अधीन रहकर भी युद्धमें मतवाला हो उठता था। वज्रदत्तने कुपित होकर उस हाथीको-अर्जुनकी ओर बढ़ाया। राजाके भँकुराकी घोट लाकर वह महाबली गजराज जब आगेकी ओर मूँघटा तो ऐसा जान पड़ा, मानो वह आकाशमें उड़ जाना चाहता है। वज्रदत्तकी इस प्रकार आक्रमण करता देख अर्जुन श्रेष्ठमें भर गये और पँदस होनेपर भी हाथीपर बैठे हुए वज्रदत्तसे युद्ध करने लगे। वज्रदत्तने रोधमें भरकर अर्जुनके ऊपर अग्निके समान तेजस्वी तोमर धसाये। ये तोमर वेगसे उड़नेवाले पतंगोंकी तरह अर्जुनकी ओर चले; किंतु अग्नी पास भी नहीं आने पाये थे कि अर्जुनने गाण्डीव-धनुषद्वारा बहुत-से बाण छोड़कर आकाशमें ही एक-एक तीमरके बोन्दो, तीन-तीन टुकड़े कर डाले। यह देख वज्रदत्त अर्जुनके ऊपर लगातार बाणोंकी वर्षा करने लगा। तब अर्जुनने भी कुपित होकर बड़ी फुर्तके साथ भगवत्तके पुत्रकी सीधे जानेवाले बाणोंका निशाना बनाया। उन बाणोंकी घोट लाकर वह महान् तेजस्वी राजा बहुत पापन हो गया

और हाथीकी पीठसे जमीनपर जा पड़ा; किंतु इतनेपर भी वह बँहोता नहीं हुआ। तबन्त, वज्रदत्त पुनः हाथीपर सवार हो धर्मके साथ युद्धमें डट गया और अर्जुनको परास्त करनेके विचारसे फिर हाथीको उनकी ओर बढ़ाया, यह देख अर्जुन श्रेष्ठसे आगबबूला हो उठे और उन्होंने हाथीके ऊपर प्रवृत्तित अग्निके समान तेजस्वी बाणोंका प्रहार किया। उनकी पीठसे उस महान् गजराजके शरीरमें घाव हो गया और खूनकी धारा बहने लगी। उस समय वह गुरु मिले हुए जलकी धारा बहानेवाले अनेकों ऋत्विजियुक्त पहाड़के समान जान पड़ता था।

इस प्रकार अर्जुनका राजा वज्रदत्तके साथ तीन दिनोंतक निरन्तर युद्ध होता रहा। चौथे दिन महाबली वज्रदत्तने अदृहात करके कहा—'अर्जुन ! सदा तो तू आश्रय में जीवित नहीं छोड़ूँगा। तुझे मारकर अपने पिताका विधिघत्तु संपन्न करूँगा। मेरे पिता भगवत्त तेरे पिताके मित्र थे तो भी तूने उनकी हत्या की। ये बूढ़े थे, इतलिये तू उन्हें मारनेमें सक्त हो सका है। आश्रय उनका बातक में तेरे सामने उपस्थित हैं। मेरे साथ युद्ध कर।' यों कहकर श्रेष्ठमें भरते हुए वज्रदत्तने पुनः अर्जुनकी ओर अपना हाथी बढ़ाया। स्वामीका इशारा पाकर वह गजराज नृत्य-ना करता हुआ पुनः प्रहारयो अर्जुनके पास जा पहुँचा। यह देखकर भी वे मयभीत नहीं हुए बल्कि पहलेके वरका स्मरण करते अत्यन्त श्रेष्ठमें भर गये। फिर बाणोंकी वर्षा करके उन्होंने वज्रदत्तके हाथीको इस तरह रोक दिया, जैसे किनारेकी मृत्ति समुद्रके वेगकी रोक देती है। अपने हाथीको दबा हुआ देख भगवत्त-कुमार श्रेष्ठसे मुग्ध हो उठा और उसने अर्जुनपर तीनों बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। साथ ही अपने पर्वतकार गजराजको बलपूर्वक आगे बढ़ाया। यह देख अर्जुनने उस हाथीके ऊपर अग्निके समान तेजस्वी नाराचका प्रहार किया। उससे हाथीके मर्मस्थानमें बड़ी भारी घोट पहुँची और वह वज्रके मारे हुए पर्वतकी भाँति स्रस्ता जमीनपर बह पड़ा।

उसके साथ ही वज्रदत्त भी नीचे आ गया। उसे भूमिपर पड़ा देख पाण्डुनन्दन अर्जुनने कहा—‘राजन् ! तुम डरो मत। आते समय मुझसे महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरने कह दिया था कि ‘धनंजय ! तुम किसी भी राजाका वध न करना और युद्ध ठानकर योद्धाओंके प्राण न लेना। मार्गमें जो राजा मिलें उन्हें निमन्त्रण देते हुए कहना—‘आपलोग अपने इष्ट-मित्रोंके साथ युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञमें पधारकर वहाँके उत्सवमें

भाग लें।’ भाईकी यह आज्ञा स्वीकार करके मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा। अब तुम्हें कोई मय नहीं है। उठो और कुशलपूर्वक अपने घरको जाओ। आगामी चैत्रकी पूर्णिमाको धर्मराजका अश्वमेधयज्ञ आरम्भ होगा। उस समय तुम उसमें अवश्य पधारना।’

अर्जुनके ऐसा कहनेपर उनके द्वारा परास्त हुए भगदत्त-कुमार वज्रदत्तने कहा—‘बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा।’

अर्जुनका सैन्धव वीरोंके साथ युद्ध और दुःशलाके प्रयत्नसे उसको समाप्त

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर, महाभारत-युद्धमें मरनेसे बचे हुए सिन्धुदेशीय वीरोंके साथ अर्जुनका युद्ध हुआ। यज्ञके घोड़ेको अपने राज्यकी सीमाके भीतर पाकर सिन्धुदेशके विषले क्षत्रिय अर्जुनसे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वे पहले संग्राममें अर्जुनसे परास्त हो चुके थे और अब उन्हें जीतना चाहते थे, इसलिये उन महापराक्रमी वीरोंने पार्यको चारों ओरसे घेर लिया और उन्हें अपने बाणोंकी वर्षासे आच्छादित कर दिया। वे एक हजार रथ और दस हजार घोड़ोंसे धनंजयको घेरकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। क्रुश्वेत्तके मैदानमें अर्जुनके द्वारा जो जयद्रथका वध हुआ था, उसकी याद उन्हें कभी भूलती नहीं थी। अब वे मेघके समान बाणोंकी वर्षा करने लगे। उनके बाणोंसे आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन अर्जुन वादलोंमें छिपे हुए सूर्यकी भाँति शोभा पा रहे थे। उन्हें सायकोंसे पीड़ित देख तीनों लोकोंमें हाहाकार मच गया। उस समय घबराहटके कारण अर्जुनके हाथसे धनुष और दस्ताने गिर पड़े। उन्हें अचेत अवस्थासे पाकर सैन्धव योद्धा बड़ी तेजीके साथ बाणवर्षा करने लगे। अर्जुनकी संकटापन्न स्थितिका अनुभव करके देवताओंके मनमें मय समा गया और वे उनके लिये शान्तिका उपाय करने लगे। तदनन्तर, देवताओंके प्रयत्नसे अर्जुनका तेज पुनः उदीप्त हो उठा और उत्तम अस्त्रविद्याके जाननेवाले परम बुद्धिमान् धनञ्जय संग्राम-भूमिमें पर्वतके समान अचलभावसे खड़े हो गये। फिर उन्होंने अपने दिव्य धनुषपर टंकार दी। उस समय उससे मशीनकी तरह बड़े जोर-जोरसे आवाज होने लगी। इसके बाद जैसे इन्द्र पानीकी वर्षा करते हैं उसी तरह अर्जुनने शत्रुओंके ऊपर बाणोंकी मड़ी लगा दी। फिर तो पार्यके बाणोंसे आच्छादित हो सैन्धव योद्धा टीडियोंसे ढके हुए वृक्षोंकी भाँति अपने राजासहित अदृश्य हो गये। कितने ही गाण्डीवकी आवाज सुनकर धरा उठे, बहुतेरे मयसे व्याकुल होकर भाग गये और अनेकों योद्धा

शोकसे आतुर होकर आँसू बहाने तथा संतप्त होने लगे। उस समय अर्जुन अलातचक्रकी भाँति घूम-घूमकर सायकोंकी वर्षा कर रहे थे। उन्होंने सम्पूर्ण दिशाओंमें इन्द्रजालके समान बाणोंका जाल-सा फैला दिया। तदनन्तर, सिन्धुदेशीय वीर फिरसे संगठित होकर खड़े हो गये और क्रोधमें भरकर बाणोंको वृष्टि करने लगे। तब धर्मज्ञ अर्जुनने रणोन्मत्त सैन्धवोंसे कहा—‘योद्धाओ ! मैं तुम्हारे कल्याणकी बात बता रहा हूँ। तुममेंसे जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए यह कहेगा कि ‘मैं आपका हूँ, आपने मुझे युद्धमें जीत लिया है,’ वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वध नहीं करूँगा। मेरी यह बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना हित दिखायी पड़े, वह करो।’ ऐसा कहकर क्रुश्वेत्त अर्जुन अत्यन्त कुपित हो क्रोधमें भरे हुए सैन्धव वीरोंसे युद्ध करने लगे। तब सैन्धवोंने अर्जुनपर लाखों बाणोंका प्रहार किया; किंतु उन्होंने अपने तीखे सायकोंसे उन सभी बाणोंको बीचसे ही काट डाला और प्रत्येक योद्धाको तेज किये हुए तीरोंसे बाँध दिया। यह देख जयद्रथ-वधका स्मरण करके सैन्धवोंने अर्जुनको मारनेके लिये पुनः उनके ऊपर शक्ति और प्राप्त चलाये, परंतु उनके संकल्प व्यर्थ हो गये। महाबली धनञ्जयने उनकी शक्ति और प्राप्तोंको बीचसे ही काटकर बड़े जोरसे गर्जना की और विजयाभिलाषा लेकर आक्रमण करनेवाले सैन्धवोंके मस्तकको वे भल्लोंसे काट-काटकर गिराने लगे।

समस्त सैन्धवोंको कष्ट पाते जान घृतराष्ट्रकी पुत्री दुःशला अपने बेटे सुरथके बालकको साथ ले रथपर सवार हो रणभूमिमें उपस्थित हुई। उसके आनेका उद्देश्य यह था कि सब योद्धा युद्ध छोड़कर शान्त हो जायें। अर्जुनके पास जाकर वह आर्तस्वरसे रोने लगी। उसे सामने देख धनञ्जयने भी धनुष नीचे डाल दिया। फिर बहिनका विधिवत् सत्कार करते हुए बोले—‘कल्याणी ! बताओ, मैं तुम्हारा कौन-सा कार्य



आयी हूँ।' यह कहकर वह अत्यन्त आनंद होकर विताप करने लगी। उसकी बीन-दशा देख अर्जुनने भी बीन भावसे अपना सिर नीचा कर लिया। तदनन्तर दुःशाला फिर कहने लगी—'मैया! तुम कुशकुसुमें श्रेष्ठ और धर्मको जाननेवाली हो। मुझ बुझिया बहिन और अपने भानजेके पुत्रकी ओर देखो। मन्दबुद्धि दुर्योधन और जयद्रथको मूल जाओ। अंत अग्नि-मन्युते परोक्षिका जन्म हुआ है, उसी प्रकार सुरयने मेरे इस पीत्रकी उत्पत्ति हुई है। इसीको गोदमें लेकर आज मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। मैं चाहती हूँ सब योद्धा शान्त हो जायें और तुम इस निरौह शिशुपर रूपा करो। यह तुम्हारे चरणों-पर मस्तक रखकर शान्तिकी भोल माँगता है; अतः शान्त हो जाओ। यह निरा अवोध है—कुछ नहीं जानता, इसके भाई-बन्धु नाष्ट हो चुके हैं, अतः अब इसके ऊपर क्या करो। पीध त्याग दो।

दुःशालाके ये करुणापुस्त बचन सुनकर अर्जुनको दुःख और शोकसे पीड़ित राजा धृतराष्ट्र और गांधारी देवीका स्मरण हो आया और ये शत्रिय-धर्मका तिरस्कार करते हुए बोले—'राज्यके लोभी और अग्निमानके पुत्रले उम मीच दुर्योधनकी धिक्कार है, जिसके कारण हमने अपने सभी बन्धु-बाण्यवोंको पमलोक भेज दिया।' यों कहकर अर्जुनने दुःशाला-को बहुत सान्त्वना दी और प्रसन्नतापूर्वक मितकर उसे धरकी ओर बिदा किया। दुःशालाने भी उस महान् युद्धसे अपने पोढ़ाओंको पीछे लौटाया और अर्जुनकी प्रशंसा करती हुई प्रसन्नबदन होकर वह धरकी लौट गयी। इस प्रकार संप्रथ वीरोंको परास्त करके धनञ्जय तेजोंके साथ आगे बढ़नेवाले और स्वेच्छानुसार विचरनेवाले उस घोड़ेके पीछे-पीछे तीव्र गतिसे चलने लगे। घोड़ा प्रमत्तः एकके बाद दूसरे बेगमें जाता और अर्जुनके पराभवको बढ़ाता हुआ इच्छानुसार विचरने लगा। धूमता-धामता यह अर्जुनसहित मणिपुर-नरेशके राज्यमें जा पहुँचा।

करें?' दुःशालाने कहा—'भरतश्रेष्ठ! यह तुम्हारे भानजेका पुत्र तुम्हें प्रणाम करता है। इसकी ओर देखो।' यह सुनकर अर्जुनने पूछा—'बहिन! इस बालकके पिता कहीं हैं?' दुःशाला बोली—'मैया! मेरे पुत्र सुरयने पहलेसे सुन रखा था कि अर्जुनके हाथसे ही मेरे पिताकी मृत्यु हुई है। इसके बाद जब उसके कानोंमें यह समाचार पड़ा है कि अर्जुन घोड़ेके पीछे-पीछे यहाँतक आ पहुँचे हैं, तो वह सजके मारे संतापने पीड़ित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा है और उसी क्षण उसके प्राण-श्लेख उड़ गये हैं। उसे इस अवस्थामें देख उसके पुत्रको साथ लेकर शरण खोजता हुई अब मैं तुम्हारे पास

अर्जुन और बभ्रुवाहनका युद्ध तथा अर्जुनकी मृत्यु

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! मणिपुरके राजा बभ्रुवाहनको जब अपने पिता अर्जुनके आनेका समाचार मिला तो वह बाह्यणोंको आगे करके बहुत-सा धन साथमें लेकर बड़ी विनयके साथ दर्शनके लिये नगरसे बाहर निकला। मणिपुरनरेशको इस रूपमें आते देख परम बुद्धिमान् धनञ्जयने शत्रिय-धर्मका स्मरण करके उसका आदर नहीं किया। बल्कि दुपिन होकर कहा—'बेटा! तेरा यह शंभ ठीक नहीं है। मैं महाराज युधिष्ठिरके धनसम्बन्धी घोड़ेकी रक्षा करता हुआ

तेरे राज्यके मोतर आया हूँ फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता। दुमंते! तू शत्रिय-धर्मसे बहिष्कृत हो चुका है, इसलिये तुझे धिक्कार है। संसारमें कौचित रहकर तूने कोई पुरपाय नहीं किया। तभी तो मुझ युद्धके लिये आये हुए जानकर भी तू शक्तिपूर्वक साथ से जानेको आया है। हृषिके हृषियार रखकर सास्त्री हाथ तेरे पास आता तो तेरा! मितना ठीक हो सरता था।

अर्जुन जब बभ्रुवाहनसे उपसृंग बातें कह रहे थे,

समय यह हाल जातकर नागकन्या उलूपी धरती चीरकर वहाँ आ पहुँची। उसे अपने स्वामीकी कठोर बात नहीं सही गयी। इसलिये उसने बभ्रुवाहनसे धर्मयुक्त वचन कहा—'बेटा! मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूँ। मेरी बात मानो, इससे तुम्हें परम धर्मकी प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुवंशके श्रेष्ठ पुरुष और युद्धके मदसे उन्मत्त रहनेवाले वीर हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो (यही इनके लिये समुचित सत्कार होगा) और ऐसा करनेसे ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न होंगे। माताकी यह बात सुनकर महातेजस्वी बभ्रुवाहनने मन-ही-मन युद्ध करनेका निश्चय किया। उसने सुवर्णमय कवच पहनकर मस्तकपर तेजस्वी शिरस्त्राण धारण किया तथा संकड़ों तरफसोंसे भरे हुए, सब प्रकारकी युद्ध-सामग्रियोंसे सुसज्जित, मनके समान वेगवान् घोड़ोंसे युक्त, चक्र और आवश्यक वस्तुओंसे पूर्ण, सोनेके भाण्डोंसे विभूषित, सिंहके चिह्नवाली ध्वजासे सुशोभित और सोनेके बने हुए परम उत्तम रथपर सवार हो अर्जुनपर धावा किया। निकट आनेपर उस वीरने पार्थके संरक्षणमें विचरनेवाले यज्ञसम्बन्धी घोड़ोंको अश्व-शिक्षामें प्रवीण पुरुषोंद्वारा पकड़वा लिया। घोड़ोंको पकड़ा गया देख धनञ्जयका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वे रथपर बैठे हुए अपने पुत्रको युद्धके मैदानमें आगे बढ़नेसे रोकने लगे। राजा बभ्रुवाहनने वीरवर अर्जुनको विपरीत साँपोंके समान जहरीले और तेज किये हुए संकड़ों बाणोंसे वींघकर अनेकों बार पीड़ित किया। पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे। उनके उस युद्धकी कहीं तुलना नहीं थी। वह संग्राम देवता और असुरोंके संग्रामको भी मात कर रहा था। बभ्रुवाहनने हँसते-हँसते अर्जुनके गलेकी हँसलीमें एक बाण मारा। जैसे साँप अपने विलमें घुस जाता है, उसी प्रकार वह बाण अर्जुनके शरीरमें पङ्कसहित प्रवेश कर गया और उसे छेदकर पृथ्वीमें समा गया। उसकी चोटसे अर्जुनको बड़ी वेदना हुई। वे अपने धनुषका सहारा लेकर मुँहके समान निश्चेष्ट हो गये। थोड़ी देर बाद जब उन्हें

होश हुआ तो अपने पुत्र बभ्रुवाहनकी प्रशंसा करते हुए बोले—'बेटा! तुम धन्य हो! चित्राङ्गदानन्दन! आज तुमने अपने योग्य पराक्रम दिखलाया है। इसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अच्छा, अब मैं बाण मारता हूँ। तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ।'

ऐसा कहकर अर्जुनने नाराचोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। गाण्डीव-धनुषसे शूट हुए वे नाराच इन्द्रके वज्रके समान जान पड़ते थे; परंतु राजा बभ्रुवाहनने भल्ल मारकर उन सभी नाराचोंके दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर दिये। तब अर्जुनने मुसकराकर क्षुराकार दिव्य बाणोंके प्रहारसे बभ्रुवाहनके रथकी सुनहले तालवृक्षके समान ऊँची सुवर्णमयी ध्वजा काट गिरायी और उसके वेगवान् घोड़ोंको भी मार डाला। घोड़ोंके मरनेपर बभ्रुवाहन रथसे उतर पड़ा और क्रोधमें भरकर पैदल ही अपने पितासे युद्ध करने लगा। पुत्रका पराक्रम देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अधिक पीड़ा नहीं पहुँचायी। तब बभ्रुवाहनने पिताको युद्धसे विमुख होते जानकर पुनः सर्पके समान जहरीले बाणोंसे उन्हें पीड़ा देनी आरम्भ की। उसने बालस्वभावके कारण परिणामपर विचार किये बिना ही पिताकी छातीमें एक तीखे बाणका जोरदार प्रहार किया। वह बाण अर्जुनके मर्मस्थानको छेदकर घुस गया और अत्यन्त कष्ट देने लगा। उसकी चोटसे अत्यन्त घायल हो जानेके कारण वे मूर्च्छित होकर जमीनपर गिर पड़े। बभ्रुवाहन भी अर्जुनके बाणोंद्वारा पहलेसे ही बहुत घायल हो चुका था, इसलिये वह भी वेहोया होकर पृथ्वीका आलिङ्गन करने लगा। बभ्रुवाहनकी माता चित्राङ्गदाने जब देखा कि पति और पुत्र दोनों धराशायी हो गये हैं तो उसने शिङ्कित हृदयसे रणभूमिमें प्रवेश किया। वहाँ जानेपर उसे पतिदेव अर्जुन मरे हुए दिखायी दिये; उनकी अवस्था देखकर वह काँप उठी और शोकसे संतप्त होकर अत्यन्त विलाप करने लगी।

चित्राङ्गदाका विलाप, बभ्रुवाहनका शोक, उलूपीके प्रयत्नसे अर्जुनका पुनः जीवित होना तथा उन सबकी बातचीत

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! चित्राङ्गदा पति-विधोगके दुःखसे संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूर्च्छित हो गयी और पृथ्वीपर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश हुआ तो उसने देखा, नागकन्या उलूपी दिव्य रूप धारण किये सामने खड़ी है। उसे देखकर चित्राङ्गदा

कहने लगी—'उलूपी! देखो, तुम्हारे ही कहनेसे मेरे पुत्रने बाण मारकर समरविजयी अर्जुनकी हत्या की है। रणभूमिमें मरकर पड़े हुए अपने स्वामीको आज तुम भी जी-भरकर देख लो। तुम तो श्रेष्ठ धर्मकी जाननेवाली और बड़ी पतिव्रता हो न? इसीसे तुम्हारे पतिदेव आज तुम्हारे ही प्रयत्नसे मारे

जाकर रणभूमिमें सो रहे हैं। बहिन! मैं तुमसे अर्जुनके प्राणोंकी भीख मांगती हूँ। तुम इन्हें जीवित कर दो। कल्याणी! तुम्हें सब धर्मोंका ज्ञान है और तीनों लोकोंमें तुम्हारी ख्याति फैली हुई है (अतः तुम स्वामीको जिला सकती हो)। आर्ये! मैं अपने बेटेके लिये जतना शोक नहीं करती। मुझे तो इन पतिदेवके ही लिये अत्यन्त शोक हो रहा है, जिनका मेरे यहाँ इस प्रकार अनियमित-सत्कार किया गया।



नागकन्या उलूपीसे इस प्रकार कहकर परम परात्विनी चित्राङ्गदा अपने स्वामी अर्जुनके पास जाकर बोली—'प्रियतम! उठो, मैंने तुम्हारा धोड़ा छुड़ा दिया है। तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिरके यज्ञ-सम्बन्धी अरवके पीछे-पीछे जाना है; फिर यहाँ कैसे सो रहे हो? समस्त कौरवोंके प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं। तुम तो दूसरोंके प्राणदाता हो, तुमने स्वयं कैसे प्राण त्याग दिया?' (इसके बाद वह उलूपीसे फिर कहने लगी—) 'उलूपी! पतिदेव पृथ्वीपर मरे पड़े हैं, इन्हें अच्छी तरह देख लो। तुमने बेटेको उकसाकर स्वामीकी हत्या करायी है, क्या इसके लिये तुम्हें शोक नहीं होता। मृत्युके परामें पड़ा हुआ मेरा बालक चाहे सदाके लिये भूमिपर सोता रह जाय, किंतु निद्रापर विजय पानेवाले अर्जुनके जीवनकी रक्षा हो जानी चाहिये। विधाताने पति और पत्नीकी मित्रता सदा रहनेवाली एवं अटूट बनायी है। तुम्हारा भी इनके साथ यही सम्बन्ध है। इस सत्यभावके महत्वको

समझो और ऐसा उपाय करो, जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं सार्थक हो। तुम्होंने बेटेको सड़ाकर मेरे पतिकी जान ली है। यदि आज पुनः इन्हें जीवित करके नहीं दिला दोगी तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। मेरे पति और पुत्र दोनों नष्ट हो गये; उनके बिना मैं अगाध शोकमें डूब रही हूँ और तुम्हारे सामने यहाँ ही प्रायोपवेशन (आमरण उपवास) के लिये बंठती हूँ।'

उलूपीसे ऐसा कहकर चित्राङ्गदा अनगन-व्रत धारण करके घुपघुप बंठ गयी। तदनन्तर राजा बधुवाहनकी होश हुआ। वह अपनी माताको रणभूमिमें बंठी देख दुःखी होकर कहने लगा—'हाय! जो अबतक मुझमें पत्नी थी, वही मेरी माता चित्राङ्गदा आज मृत्युके अधीन होकर पृथ्वीपर पड़े हुए अपने वीर पतिके साथ मरनेका निरवयव करके दंडी हुई है। इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है? संग्राममें जिनका वध करना दूसरेके लिये नितान्त कठिन है, उन्हीं मेरे पिता अर्जुनको आज यह मेरे ही हाथों मौतके मुखमें पड़े देल रही है। जान पड़ता है अन्तकाल आये बिना किसी भी शोकका मरना बड़ा कठिन है; तभी तो इस संघटके समय भी मेरे और मेरी माताके प्राण नहीं निकलते। हाय! मुझे धिक्कार है। ब्राह्मणों! मैं पिताकी हत्या करनेवाला, क्रूरकर्मा एवं महापापी हूँ। बताइये, मेरे लिये अब कौन-सा प्रायश्चित्त है? नागराजकी पुत्री उलूपी! देखो, आज युद्धमें मैंने तुम्हारे स्वामीका वध किया है, शायद इससे तुम्हारा प्रिय हुआ होगा; किंतु माँ! मैं तो सत्यकी सौगन्ध साकर कहता हूँ, अब इस शरीरको नहीं धारण करूँगा। जहाँ मेरे पिता गये हैं वहाँ मैं भी जाऊँगा।' ऐसा बहुरार राजा बधुवाहनने दुःख-शोकसे पीड़ित हो आचमन किया और बड़े खेदके साथ इस प्रकार कहा—'संतारके कराचर प्राणियों तथा माता उलूपी! आप सब लोग सुनें, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। यदि मेरे पिता नरघोष्ठ अर्जुन आज जीवित होकर नहीं उठे तो मैं इस रणभूमिमें ही उपवास करके अपने शरीरको मुला डालूँगा। पिताकी हत्या करके अब मेरे लिये इतर कोई प्रायश्चित्त नहीं है। ये पाण्डुपुत्र धनञ्जय महान् तेजस्वी, धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे। इनका वध करके मैंने महान् पाप किया है। अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है?' यों कहकर अर्जुनकुमार बधुवाहनने पुनः आचमन किया और आमरण उपवासका व्रत लेकर घुपघुप बंठ गया।

तब उलूपीने संजीवन-मणिका स्मरण किया। नागोंके जीवनकी आधारभूत यह मणि उसके स्मरण करने ही यहाँ आ गयी। उसे हाथमें लेकर नागराजकुमार उलूपीने कहा—'बेटा! उठो, शोक न करो।'

परास्त नहीं हुए हैं। ये मनुष्यमात्रके लिये अजेय हैं। इन्द्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। यह तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिताका प्रिय करनेके लिये मोहिनी माया दिखलायी है। तुम अपने द्वारा कोई पाप होनेकी रत्तीभर भी शङ्का न करो। ये महात्मा नर पुरातन ऋषि, सनातन एवं अविनाशी हैं। युद्धमें इन्द्र भी इनको नहीं हरा सकते। लो, मैं यह दिव्य मणि ले आयी हूँ। यह अपने स्पर्शसे सदा मरे हुए सर्पोंको जीवित किया करती है। इसे अपने पिताकी छातीपर रख दो। इसका स्पर्श होते ही ये तुम्हें जीवित दिखायी देंगे।

उलूपीके ऐसा कहनेपर अमिततेजस्वी बभ्रुवाहनने बड़े प्रेमके साथ पिताकी छातीपर वह मणि रख दी। उसके रखते ही वीरवर अर्जुन देरतक सोनेके बाद जगें हुए मनुष्यकी भाँति जीवित हो उठे। अपने मनस्वी पिताको सचेत और स्वस्थ देखकर बभ्रुवाहनने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उस समय इन्द्रने अर्जुनके ऊपर दिव्य फूलोंकी वर्षा की। देवताओंकी कुण्डुभियाँ बिना बजाये ही मेघ-गर्जनाके समान गम्भीर स्वरमें बज उठीं। आकाशमें 'साधुवाद' की ध्वनि गूँजने लगी। महाबाहु अर्जुन भलीभाँति स्वस्थ होकर उठे



और बभ्रुवाहनको छातीसे लगाकर उसका मस्तक सूँघने लगे। इतनेहीमें उलूपीके साथ कुछ दूरपर खड़ी हुई बभ्रुवाहनकी मातापर उनकी दृष्टि पड़ी, जो शोकसे दुर्बल हो रही थी।

उसे देखकर अर्जुनने उलूपीसे पूछा—'कल्याणी! इस रण-भूमिमें तुम्हारे और बभ्रुवाहनकी माताके आनेका क्या कारण है? मुझसे या बभ्रुवाहनसे अनजानमें तुम्हारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया अथवा राजकुमारी चित्राङ्गदाने तो तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया।' यह प्रश्न सुनकर उलूपी हँस पड़ी और बोली—'प्राणनाय! आपने या बभ्रुवाहनने मेरा कोई अपराध नहीं किया है तथा बभ्रुवाहनकी माताने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। यह तो सदा दासीकी भाँति मेरी आज्ञाके अधीन रहती है। यहाँ आकर मैंने जिस प्रकार जो-जो काम किया है वह सब वतलाती हूँ, सुनिये। पहले आपके चरणोंपर मस्तक झुकाकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरेद्वारा जो कुछ अपराध हुआ है, वह सब आपकी भलाईके उद्देश्यसे हुआ है, इसलिये आप मुझपर क्रोध न कीजियेगा। महाभारतके युद्धमें शिखण्डीकी आड़ लेकर जो आपने भीष्मजीका वध किया था, उस पापकी शान्तिके लिये वसुओंने एक उपाय वतलाया था। पहलेकी बात है, मैं गङ्गाजीके तटपर गयी थी। वहाँ भीष्मजीकी मृत्युके बाद देवता और वसु एकत्रित होकर स्नान करने आये। उन सबने गङ्गाजीसे मिलकर यह भयंकर बात कही—'देवि! शान्तनुन्दन भीष्म दूसरेके साथ युद्ध कर रहे थे तो भी सव्यसाची अर्जुनने उनका वध किया है। इस अपराधके कारण हम उन्हें शाप देना चाहते हैं (इसके लिये आप आज्ञा दीजिये)। यह सुनकर गङ्गाजीने कहा—'हाँ, ऐसा ही होना चाहिये।' उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ और पातालमें प्रवेश करके मैंने अपने पितासे यह सारा समाचार कह सुनाया। यह सुनकर पिताजीको भी बड़ा खेद हुआ और वे वसुओंके पास जाकर आपके लिये क्षमा-पाचना करने लगे। उनके वारंवार प्रार्थना करनेपर वसुओंने प्रसन्न होकर कहा—'महाभाग! मणिपुरका तरुण राजा बभ्रुवाहन अर्जुनका पुत्र है। वह संग्राममें खड़ा होकर जब अपने बाणोंसे उन्हें मार गिरायेगा, उस समय उनको इस पापसे छुटकारा मिल जायगा। अब तुम अपने स्थानको जाओ।' वसुओंके ऐसा कहनेपर मेरे पिताने घर आकर मुझसे यह बात बतायी। इसे सुनकर मैंने इसीके अनुसार चेष्टा की है और आपको उस पापसे छुटकारा दिलाया है। युद्धमें तो देवराज इन्द्र भी आपको नहीं जीत सकते। पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसीलिये इसके हाथसे यहाँ आपकी पराजय हुई है।'

उलूपीकी बात सुनकर अर्जुनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे कहने लगे—'देवि! तुमने जो कुछ किया है, उससे मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य हुआ है।' उलूपीसे ऐसा कहकर चित्राङ्गदाको सुनाते हुए वे बभ्रुवाहनसे बोले—'बेटा! आगामी

ध्वजकी पूर्णमाको महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेध-यज्ञ होनेवाला है। तुम अपनी दोनों माताओंको साथ लेकर मन्त्रियोंसहित उस घतमें आना। पिताके स्नेहपूर्ण वचन सुनकर बध्नुवाहनकी आँखोंमें प्रेमके अर्धु छलक आये। वह बोला—‘धर्मज! आपकी आशासे मैं अवश्य अश्वमेध-यज्ञमें सम्मिलित होऊँगा और उसमें बाह्यणोंको भोजन परोसनेका काम कहूँगा। इस समय आपसे एक प्रार्थना है। आज मनुष्य कृपा करनेके लिये अपनी दोनों धर्मपत्नियोंके साथ इस नगरमें प्रवेश कीजिये। यह भी आपका घर है। इसमें एक रात सुखपूर्वक निवास करके कल सबेरे घोड़ेके पीछे-

पीछे जाइयेगा।’ यह सुनकर अर्जुनने बिना-झुंदापुमारसे कहा—‘महाबाहो! यह तो तुम जानते हो कि मैं बीसा ग्रहण करके विरोध विषयोंके पातनपूर्वक विचार रहा हूँ। इसलिये जबतक यह बीसा पूर्ण नहीं हो जातो तबतक मैं तुम्हारे नगरमें नहीं प्रवेश कर सकता। यह यज्ञका घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार चलता है (इसे वहीं भी रोकनेका नियम नहीं है), अतः तुम्हारा बन्ध्याण हो, मैं अब जाऊँगा। मेरे टहरनेके लिये कोई स्थान नहीं है।’

तदनन्तर, बध्नुवाहनने अर्जुनकी विधियत्त पूजा की और वे अपनी दोनों भार्याओंकी अनुमति लेकर यज्ञमें चत दिये।

अर्जुनका मगध, चेदि, काशी, कोसल आदि देशोंके राजाओंको परास्त करते हुए गान्धार देशमें पहुँचना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! इसके बाद वह घोड़ा समुद्रपर्यन्त समुद्री पृथ्वीको परिक्रमा करके पीछेकी ओर लौटा। अर्जुन भी उसके पीछे-पीछे लौट पड़े। रास्तेमें उन्हें राजगृहनामका नगर मिला। सहदेवका पुत्र मेघसंधि वहाँका राजा था। उसने अब सुना कि अर्जुन मेरे नगरके निकट आये हैं तो क्षत्रिय-धर्ममें स्थित होकर उन्हें युद्धके लिये आमन्त्रित किया। तत्परचात् स्वयं भी धनुष-बाणसे मुसज्जित हो रथपर बैठकर नगरसे बाहर निकला। उसने पैदल आते हुए अर्जुनपर धावा करके कहा—‘भारत! क्यों इस घोड़ेके पीछे-पीछे फिर रहे हो? मैं इसे अभी पकड़कर लिये जाता हूँ। हिम्मत हो तो इसे छुड़ानेका यत्न करो। यदि मेरे पूर्वजों-ने कभी युद्धमें तुम्हारा स्वागत न किया हो तो मैं यह कभी पूरी कहूँगा—मेरे द्वारा आज तुम्हारा सत्कार होगा। पहले तुम मनुष्य पर प्रहार करो, फिर मैं भी तुमपर प्रहार कहूँगा।

मेघसंधिके ऐसा कहनेपर पाण्डुनन्दन अर्जुन हँसकर बोले—‘राजन्! मेरा द्रत तो यह है कि जो मेरे कार्यमें विघ्न डाले उसीको मैं रोकूँ, अतः तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो।’ यह सुनकर पहले मगधराज मेघसंधि-ने ही प्रहार किया। उसने अर्जुनपर हजारों बाणोंकी वर्षा की; किन्तु पाण्डवप्राची धनञ्जयने उन सभी बाणोंको अपने सायकसे काटकर ध्वंस कर दिया। साय ही मेघसंधिके ध्वज, पताकादण्ड, रथ, यन्त्र, घोड़े तथा रथके अन्य अङ्गों-पर उन्हीं बहुतसे प्रज्वलित बाण छोड़े; किन्तु राजाके शरीर और सारथिपर एक भी बाण नहीं मारा। मगधराज मेघसंधि इसको अपना पराक्रम समझने लगा और अर्जुनपर

सगातार बाणोंकी वर्षा करता रहा। उसके प्रहारसे जब अर्जुन बेतर्ह धावल हो गये तो जग्हेनि क्रीडमें सरकर अपने धनुषपर जोरसे टंकार बो और मेघसंधिके घोड़ोंकी मारकर उसके सारथिका भी तिर उड़ा दिया। फिर दुराकार बाणसे उसके महान् धनुषको काट जाता और हातवाण भट्ट करके उसकी ध्वजा और पताकाको भी काट गिराया। उस समय मेघसंधिको बड़ी पीड़ा हुई और वह गदा लेकर अर्जुनपर दूट पड़ा, परंतु सामने आते ही धनञ्जयने अनेकों बाण मारकर उसको स्वर्णमण्डित गदाके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब मेघसंधि रथ, धनुष और गदासे वञ्चित हो गया तो अर्जुनने उसे समझते हुए कहा—‘बेटा! तुमने क्षत्रिय-धर्मके अनुसार पूरा पराक्रम विसामा, अब अपने घर जाओ। तुम अभी मालक हो। इस युद्धमें तुमने जो शोषे प्रष्ट किया है वही तुम्हारे लिये बहुत है। महाराज युधिष्ठिरका यह आदेश है कि युद्धमें राजाओंका वध न करना; इसीलिये मेरा अपराध करनेपर भी तुम अभीतक जीवित हो।’

अर्जुनकी बात सुनकर मेघसंधिको यह विस्वात हो गया कि अब इन्होंने मेरो जान छोड़ दी है। तब वह अर्जुनके पास गया और हाथ जोड़कर उनका आचर करते हुए बहने लगा—‘वीरवर! मैं परास्त हो गया। आपका बन्ध्याण हो। नमो जो-जो सेवा सेनी हो, उसे बताइये। मैं उसे अवाय्य पूर्ण कहूँगा।’ तब अर्जुनने उसे धीरे बैसे हुए कहा—‘राजन्! तुम आगतो ध्वज पूर्णमाको महाराज युधिष्ठिरके आश्वमेधयज्ञमें पधारना।’ उनके ऐसा कहनेपर सहदेवबुद्धने ‘बहुत मरणा’ बहकर उनकी आता शीघ्र ही और अर्जुनपर विधियत्त

परास्त नहीं हुए हैं। ये मनुष्यमात्रके लिये अजेय हैं। इन्द्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। यह तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिताका प्रिय करनेके लिये मोहिनी माया दिखलायी है। तुम अपने द्वारा कोई पाप होनेकी रत्तीभर भी शङ्का न करो। ये महात्मा नर पुरातन ऋषि, सनातन एवं अविनाशी हैं। युद्धमें इन्द्र भी इनको नहीं हरा सकते। लो, मैं यह दिव्य मणि ले आयी हूँ। यह अपने स्पर्शसे सदा मरे हुए सर्पोंको जीवित किया करती है। इसे अपने पिताकी छातीपर रख दो। इसका स्पर्श होते ही ये तुम्हें जीवित दिखायी देंगे।

उलूपीके ऐसा कहनेपर अमिर्ततेजस्वी बभ्रुवाहनने बड़े प्रेमके साथ पिताकी छातीपर वह मणि रख दी। उसके रखते ही वीरवर अर्जुन देरतक सोनेके बांद जगें हुए मनुष्यकी भाँति जीवित हो उठे। अपने मनस्वी पिताकी सचेत और स्वस्थ देखकर बभ्रुवाहनने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उस समय इन्द्रने अर्जुनके ऊपर दिव्य फूलोंकी वर्षा की। देवताओंकी कुन्दुभियाँ बिना बजाये ही मेघ-गर्जनाके समान गम्भीर स्वरमें बज उठीं। आकाशमें 'साधुवाद' की ध्वनि गूँजने लगी। महाबाहु अर्जुन भलीभाँति स्वस्थ होकर उठे



और बभ्रुवाहनको छातीसे लगाकर उसका मस्तक सूँघने लगे। इतनेहीमें उलूपीके साथ कुछ दूरपर खड़ी हुई बभ्रुवाहनकी मातापर उनकी दृष्टि पड़ी, जो शोकसे दुर्बल हो रही थी।

उसे देखकर अर्जुनने उलूपीसे पूछा—'कल्याणी! इस रण-भूमिमें तुम्हारे और बभ्रुवाहनकी माताके आनेका क्या कारण है? मुझसे या बभ्रुवाहनसे अनजानमें तुम्हारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया अथवा राजकुमारी चित्राङ्गदाने तो तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया।' यह प्रश्न सुनकर उलूपी हँस पड़ी और बोली—'प्राणनाथ! आपने या बभ्रुवाहनने मेरा कोई अपराध नहीं किया है तथा बभ्रुवाहनकी माताने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। यह तो सदा दासीकी भाँति मेरी आज्ञाके अधीन रहती है। यहाँ आकर मैंने जिस प्रकार जो-जो काम किया है वह सब बतलाती हूँ, सुनिये। पहले आपके चरणोंपर मस्तक झुकाकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरेद्वारा जो कुछ अपराध हुआ है, वह सब आपकी भलाईके उद्देश्यसे हुआ है, इसलिये आप मुझपर क्रोध न कीजियेगा। महाभारतके युद्धमें शिखण्डीकी आड़ लेकर जो आपने भीष्मजीका वध किया था, उस पापकी शान्तिके लिये वसुओंने एक उपाय बतलाया था। पहलेकी बात है, मैं गङ्गाजीके तटपर गयी थी। वहाँ भीष्मजीकी मृत्युके बाद देवता और वसु एकत्रित होकर स्नान करने आये। उन सबने गङ्गाजीसे मिलकर यह भयंकर वात कही—'देवि! शान्तनुन्दन भीष्म दूसरेके साथ युद्ध कर रहे थे तो भी सव्यसाची अर्जुनने उनका वध किया है। इस अपराधके कारण हम उन्हें शाप देना चाहते हैं (इसके लिये आप आज्ञा दीजिये)। यह सुनकर गङ्गाजीने कहा—'हाँ, ऐसा ही होना चाहिये।' उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ और पातालमें प्रवेश करके मैंने अपने पितासे यह सारा समाचार कह सुनाया। यह सुनकर पिताजीको भी बड़ा खेद हुआ और वे वसुओंके पास जाकर आपके लिये क्षमा-याचना करने लगे। उनके बारंबार प्रार्थना करनेपर वसुओंने प्रसन्न होकर कहा—'महाभाग! मणिपुरका तरुण राजा बभ्रुवाहन अर्जुनका पुत्र है। वह संग्राममें खड़ा होकर जब अपने बाणोंसे उन्हें मार गिरायेगा, उस समय आपको इस पापसे छुटकारा मिल जायगा। अब तुम अपने स्थानको जाओ।' वसुओंके ऐसा कहनेपर मेरे पिताने घर आकर मुझसे यह बात बतायी। इसे सुनकर मैंने इसीके अनुसार चेष्टा की है और आपको उस पापसे छुटकारा दिलाया है। युद्धमें तो देवराज इन्द्र भी आपको नहीं जीत सकते। पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसीलिये इसके हाथसे यहाँ आपकी पराजय हुई है।'

उलूपीकी बात सुनकर अर्जुनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे कहने लगे—'देवि! तुमने जो कुछ किया है, उससे मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य हुआ है।' उलूपीसे ऐसा कहकर चित्राङ्गदाको सुनाते हुए वे बभ्रुवाहनसे बोले—'बेटा! आगामी

घँवकी पूर्णिमाको महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेध-यज्ञ होनेवाला है। तुम अपनी दोनों माताओंको साथ लेकर मन्त्रियोंसहित उस यज्ञमें आना।' पिताके स्नेहपूर्ण बचन सुनकर बछुवाहनकी आँसुमें प्रेमके आँसु छलक आये। यह बोला—'धर्मज! आपकी आतासे मैं अवश्य अश्वमेध-यज्ञमें सम्मिलित होऊँगा और उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन परोसनेका काम करूँगा। इस समय आपसे एक प्रार्थना है। आज मूसपर कृपा करनेके लिये अपनी दोनों धर्मपत्नियोंके साथ इस नगरमें प्रवेश कौजिये। यह भी आपका घर है। इसमें एक रात सुखपूर्वक निवास करके कल सबेरे घोड़ेके पीछे

पीछे जाइयेगा।' यह सुनकर अर्जुनने बिब्राह्मदासुमारसे कहा—'महाबाहो! यह तो तुम जानते हो ही कि मैं बीसा प्रह्व करके विशेष नियमोंके पालनपूर्वक विचर रहा हूँ। इसलिये जबतक यह बीसा पूर्ण नहीं हो जाती तबतक मैं मुम्हारे नगरमें नहीं प्रवेश कर सकता। यह यज्ञका घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार चलता है (इसे बहो भी रोकनेका नियम नहीं है), अतः तुम्हारा बन्ध्याग हो, मैं अब जाऊँगा। मेरे टहरनेके लिये कौई स्थान नहीं है।'

तदनन्तर, बछुवाहनने अर्जुनकी विधिपूर्वक पूजा की और ये अपनी दोनों भार्याओंको अनुमति लेकर वहाँसे चले गये।

अर्जुनका मगध, चेदि, काशी, कोसल आदि देशोंके राजाओंको परास्त करते हुए गान्धार देशमें पहुँचना

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! इसके बाद वह घोड़ा समुद्रपर्यन्त समूची पृथ्वीकी परिभ्रमा करके पीछेकी ओर लौटा। अर्जुन भी उसके पीछे-पीछे लौट पड़े। रातेमें उन्हें राजगृहनगमका नगर मिला। सहदेवका पुत्र मेघसंधि वहाँका राजा था। उसने जब सुना कि अर्जुन मेरे नगरके निकट आये हैं तो सत्रिय-धर्ममें स्थित होकर उन्हें मुझके लिये आमन्त्रित किया। तत्परचातु स्वयं भी धनुष-बाणसे सुसज्जित हों रथपर बँठकर नगरसे बाहर निकला। जतने पदल आते हुए अर्जुनपर धावा करके कहा—'भारत! क्यों इस घोड़ेके पीछे-पीछे फिर रहे हो? मैं इसे अभी पकड़कर लिये जाता हूँ। हिम्मत हो तो इसे छड़ानेका यत्न करो। यदि मेरे पूर्वजोंके कभी युद्धमें तुम्हारा स्वागत न किया हो तो मैं यह कभी पूरी करूँगा—मेरे द्वारा आज तुम्हारा सत्कार होगा। पहले तुम मूसपर प्रहार करो, फिर मैं भी तुमपर प्रहार करूँगा।

मेघसंधिके ऐसा कहनेपर पाण्डुनन्दन अर्जुन हंसकर बोले—'राजन्! मेरा व्रत तो यह है कि जो मेरे कार्यमें विघ्न डाले उसीको मैं रोकूँ, अतः तुम अपनी पूरों शक्ति लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो।' यह सुनकर पहले मगधराज मेघसंधि-ने ही प्रहार किया। उसने अर्जुनपर हजारों बाणोंकी वर्षा की; किन्तु पाण्डोवधारी धनुस्त्रयने उन सभी बाणोंको अपने सायकोंसे काटकर ध्वंस कर दिया। साथ ही मेघसंधिके ध्वज, पताकादण्ड, रथ, यन्त्र, घोड़े तथा रथके अन्य अङ्गोंपर उन्होंने बहुतसे प्रज्वलित बाण छोड़े; किन्तु राजाके शरीर और सारथिपर एक भी बाण नहीं मारा। मगधराज मेघसंधि इसको अपना पराक्रम समझने लगा और अर्जुनपर

सगातार बाणोंकी वर्षा करता रहा। उसके प्रहारसे जब अर्जुन बेतरह घायल हो गये तो उन्होंने कोपमें भरकर अपने धनुषपर जोरसे टंकार बी और मेघसंधिके घोड़ोंको मारकर उसके सारथिका भी सिर उड़ा दिया। फिर बुराकार बाणसे उसके महान् धनुषको काट डाला और हस्तब्राण मट्ट करके उसकी ध्वजा और पताकाको भी काट गिराया। उस समय मेघसंधिको बड़ी पीड़ा हुई और वह गया लेकर अर्जुनपर हट पड़ा, परंतु सामने आते ही धनुस्त्रयने अनेकों बाण मारकर उसकी स्वर्णमण्डित गवाके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इस प्रकार उसकी स्वर्णमण्डित गवाके बर्धित हो गया तो अर्जुनने उसे समझते हुए कहा—'बेटा! तुमने सत्रिय-धर्मके अनुसार पूरा पराक्रम दिखाया, अब अपने घर जाओ। तुम अभी घालक हो। इस युद्धमें तुमने जो शौर्य प्रकट किया है वही तुम्हारे लिये बहुत है। महाराज युधिष्ठिरका यह आदेश है कि युद्धमें राजाओंका शपथ न करना; इतिलिये मेरा अपराध करनेपर भी तुम अप्रतीक जीवित हो।'

अर्जुनकी बात सुनकर मेघसंधिको यह विचाराव हो गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है। तब वह अर्जुनके पास गया और हाथ जोड़कर उनका आभार करते हुए बहने लगा—'धौतर! मैं परास्त हो गया। आपका बन्ध्याग हो। मुझमें जो-जो सेवा लेती हो, उसे बनाइये। मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा।' तब अर्जुनने उसे धीरे धीरे छोड़ दिया—'राजन्! तुम आगामी चंद्र पूर्णिमाको महाराज युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञमें पधारना।' उनके ऐसा कहनेपर सहदेवजुने 'कृत्त अष्टा' कहकर उनको आता स्वोत्तर की ओर अर्जुनका विधिपूर्व

पूजन किया। तदनन्तर, वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके अनुसार समुद्रके किनारे होता हुआ बङ्ग, पुण्ड्र और कोशल आदि देशोंमें गया तथा अर्जुनने भी उन-उन स्थानोंमें जाकर गाण्डीव धनुषकी सहायतासे म्लेच्छोंकी अनेकों सेनाओंको परास्त किया।

तत्पश्चात् अर्जुन घोड़ेका अनुसरण करते हुए दक्षिण दिशाकी ओर गये। कुछ दिनों बाद उधरसे लौटकर वह स्वेच्छाचारी अश्व चेदिदेशकी राजधानीमें पहुँचा। वहाँ शिशुपालका पुत्र शरम राज्य करता था। उसने पहले तो अर्जुनके साथ युद्ध किया और उसमें परास्त होनेपर शास्त्रीय विधिके अनुसार उनकी पूजा की। चेदिराजकी पूजा स्वीकार करके वह उत्तम अश्व काशी, अङ्ग, कोशल, किरात और तङ्गण आदि देशोंमें गया। उन सभी राज्योंमें अर्जुनकी विधिवत् पूजा हुई। वहाँसे लौटकर वे वशाण देशमें पहुँचे। उस समय वहाँ महाबली चित्राङ्गवका राज्य था। उसके साथ अर्जुनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अन्तमें उसे परास्त करके वे निपादराज एकलव्यके राज्यमें गये। वहाँ एकलव्यके पुत्रने युद्धके द्वारा उन्हें रोका। फिर तो निपादोंके साथ उन्होंने बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध किया और अन्तमें निपादराजपर विजय पायी। उसके द्वारा पूजित होकर वे पुनः दक्षिण समुद्रकी ओर बढ़े। उधर भी ब्रविड, आंध्र, रौद्र, माहिषक और फोलाचलके प्रान्तोंमें रहनेवाले वीरोंके साथ अर्जुनका युद्ध हुआ। उन सबको सहजमें ही जीतकर वे घोड़ेके साथ-साथ सुराष्ट्र, गोफर्ण और प्रभासक्षेत्रमें गये। वहाँसे वह यज्ञका घोड़ा वृष्णिवीरोंके द्वारा सुरक्षित परम रमणीय द्वारका नगरीमें जा पहुँचा। वहाँ जाते ही यदुवंशी बालक उस घोड़ेको बाँधकर ले चले। इसी समय राजा उग्रसेन यमुदेवजीके साथ

पुरीसे बाहर निकले। उन्होंने बालकोंको घोड़ा ले जाते देख उन्हें मना कर दिया। तदनन्तर, वे दोनों बड़े प्रेमके साथ



अर्जुनसे मिले और शास्त्रोक्त विधिके अनुसार उनका पूजन किया। तत्पश्चात् उन दोनोंकी आज्ञा लेकर वे घोड़ेके साथ-साथ पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशोंमें होते हुए पञ्चनद देशमें गये। वहाँ उनका घोड़ा इच्छानुसार विचरता हुआ गान्धार देशमें चला गया। वहाँ गान्धारराज शकुनिके पुत्रसे अर्जुनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ।

गान्धारराजकी परास्त करके अर्जुनका लौटना, यज्ञभूमिकी तैयारी और नाना देशोंसे आये हुए राजाओंका यज्ञकी सजावट देखना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जन्मेजय। शकुनिका पुत्र गान्धारोंमें सबसे बड़ा वीर और महारथी था। वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अर्जुनका सामना करनेके लिये बढ़ा। उसके सैनिक शकुनिके वधका स्मरण करके अमर्षमें भरे हुए थे। सयने धनुष-बाण हाथमें लेकर पार्थपर आक्रमण किया। परम धर्मात्मा और फीससे भी पराजित न होनेवाले वीरवर अर्जुनने उन्हें शान्तिपूर्वक समझाकर लड़नेसे रोका तथा युधिष्ठिरका हितकारी वचन भी सुनाया; किन्तु वे अमर्षसे भरे होनेके कारण उनकी बात माननेको तैयार न हुए। अनेकों योद्धा

घोड़ेको चारों ओरसे घेरकर उसे पकड़नेके लिये आगे बढ़े। यह देख पाण्डुनन्दन अर्जुन गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए तेज धारवाले क्षुरोंसे बिना परिश्रमके ही उनके मस्तक काटने लगे। इस प्रकार मार पड़नेपर बाणोंसे पीड़ित होनेके कारण वे सब सैनिक घोड़ा छोड़कर चढ़े वेगसे अर्जुनकी ओर लौट पड़े। उन सभी गान्धारोंके द्वारा रोके जानेपर भी तेजस्वी वीर अर्जुन नाम ले-लेकर उनके सिर काटने और गिराने लगे। जब चारों ओर गान्धारोंका संहार आरम्भ हो गया तो शकुनिके के पुत्रने आगे बढ़कर पाण्डुनन्दन अर्जुनको रोका। तब

अर्जुनने जिस प्रकार जयद्रथका तिर उड़ाया था, उसी प्रकार शकुनि-युवकके शिरस्त्राणको अर्धचन्द्राकार बाणसे काट गिराया। यह देखकर गांधारोंको बड़ा विस्मय हुआ और वे सब-के-सब यह समझ गये कि अर्जुनने जान-भूमकर गांधार-राजको जीवित छोड़ दिया है। उस समय गांधारराज शकुनिका पुत्र अपने भागते हुए सैनिकोंके साथ स्वयं भी भाग खड़ा हुआ। सम्पूर्ण सेनाके मनुष्य, हाथी और घोड़े इधर-उधर भटकने लगे। सारी फौज गिरती-पड़ती भागने लगी, उन्हे अधिकांश सिपाही युद्धमें मारे गये और वह बारंबार युद्धभूमिमें ही चक्कर काटने लगी।

तदनन्तर, गांधारराजकी माता अत्यन्त भयभीत होकर बड़े मन्त्रियोंको आगे करके नगरसे निकली और उत्तम अर्घ्य लेकर रणभूमिमें उपस्थित हुई। भाते हो उसने अपने रणोन्मत्त पुत्रको युद्ध करनेसे रोका और अर्जुनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया। अर्जुनने भी उसका सत्कार करके उसके ऊपर अनुग्रह किया और शकुनिके पुत्रको सान्त्वना देते हुए कहा—'महाबाहो! तुमने जो मूर्खसे युद्ध करनेका विचार किया, यह मुझे पसंद नहीं आया; क्योंकि तुम तो मेरे भाई ही हो। मैंने माता गांधारी और पिता धृतराष्ट्रकी याद करके युद्धमें तुम्हारी उपेक्षा की है, इसीसे अबतक जीवित हो। केवल तुम्हारे अनुग्रहसे मैं जीवित हो मारे गये हूँ। अब हम-सौभाग्यमें ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। आपसका र्थ शान्त कर देना उचित है। अब तुम कभी इस प्रकार हमलोगोंके विरुद्ध युद्ध छाननेका विचार न करना। आगामी चंद्रको पूर्णिमाको महाराज युधिष्ठिरका अरथमेघ-यज्ञ होनेवाला है। उसमें तुम अवश्य पधारना।'

गांधारराजसे भी कहकर अर्जुन कुड्डलानुसार विचरने-थाले घोड़ोंके पीछे चल दिये। अब वह घोड़ा हस्तिनापुरकी राह थककर लौट पड़ा। इसी समय महाराज युधिष्ठिरको आज्ञासौकी जयानी अर्जुनके सौटनेका समाचार मिला। 'बे सङ्गुल आ रहे हैं और गांधार तथा दूसरे देशोंमें उन्होंने अब्भूत पराक्रम दिखाया है' इत्यादि बातें सुनकर उनकी क्षुभीका ठिकाना न रहा। उस दिन माघ महीनेके शुक्लपक्षकी द्वावरी तिथि थी और उसमें उत्तम मत्स्यका योग था, यह जानकर महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने अपने भाई भीम, मद्रुल और सहदेवको बुलाया और भीमको सम्बोधित करके कहा—'भीमसेन! तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़ोंके साथ-साथ आ रहे हैं। इधर यज्ञ आरम्भ करनेका समय भी निकट आ गया है। माघकी पूर्णिमा आ ही गयी। अब बीचमें केवल फाल्गुनका महीना बाकी है; अतः देरके परांगत विद्वान् ब्राह्मणोंको भेजना चाहिये कि वे धारमेघ-यज्ञकी

सिद्धिके लिये उपयुक्त स्थान देखें।' यह सुनकर भीमसेनने तत्काल राजासाताका पावन किया। अर्जुनके सौटनेका समाचार सुनकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ था। तत्पश्चात् भीमसेन यज्ञ-कर्ममें कुशल ब्राह्मणोंको आगे करके होशियार कारीगरोंके साथ नगरसे बाहर गये और शालवृक्षसे भरे हुए सुन्दर स्थान पसंद करके उसे चारों ओरसे माप लिया। तत्पश्चात् वहाँ उत्तम माणसि सुशोभित यज्ञभूमि तैयार करायी। उस भूमिमें संकूर्णो महत् ब्रह्मवाये गये, जिनके कर्णोंमें अर्धे-अर्धे रत्न अड़े हुए थे। यज्ञशाला सोने और रत्नोंसे सजायी गयी थी। वहाँ सुवर्णमय विचित्र शम्भे और धड़े-धड़े तोरण लगे हुए थे। धर्मार्थी भीमने यज्ञमण्डपके सभी स्थानोंमें शुद्ध सुवर्णका उपयोग किया था। उन्होंने अन्तःपुरकी स्त्रियों और मिश्र-मद्य बेरांति आये हुए राजाओं तथा ब्राह्मणोंके रहनेके लिये अनेकों उत्तम भवन ब्रह्मवाये। उन सबका निर्माण शास्त्रीय आधिक अनुसार हुआ था।

यह सब काम हो जानेपर भीमसेनने महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे विभिन्न राजाओंको निमन्त्रण देनेके लिये ब्रत भेजे। निमन्त्रण पाकर वे सभी राजा अनेकों प्रकारके रत्न, स्त्रियाँ, घोड़े और नाना भोजिते अस्त्र-शस्त्र लेकर वहाँ उपस्थित हुए। इन नवागत अतिथियोंका सत्कार करनेके लिये राजा युधिष्ठिरने अन्न, पान और अलौकिक शय्याओंका प्रबन्ध किया। चावल, शक्कर और गो-रससे भरे हुए भोजिते-भोजिते भवन और अनेकों सपारियाँ बनीं। धर्मराजके उस महान् यज्ञमें बहुत-से ब्रह्मवादी मुनि भी पधारे। अर्धे-अर्धे ब्राह्मण अपने शिष्योंको साथ लेकर आये। महानेजस्वी युधिष्ठिर दम्भ छोड़कर स्वयं ही उन सबका विधिबन्ध सत्कार करते और अबतक उनके लिये योग्य स्थानका प्रबन्ध हो जाता तपसक उनके साथ-साथ रहते थे। तत्पश्चात् कारीगरोंने आकर राजा युधिष्ठिरको यह सूचना दी कि यज्ञमण्डपका सारा कार्य पूरा हो गया। यह सुनकर वे अपने भाइयोंसहित बहुत प्रसन्न हुए।

तदनन्तर, यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये आये हुए राजा-सौग घूम-घूमकर भीमसेनके द्वार तैयार कराये हुए यज्ञ-मण्डपकी उत्तम सजावट देखने लगे। उन्होंने सुवर्णके बने हुए तोरण, शय्या, आसन, बिहार, रत्नोंके ढेर, धने, बर्तन, कड़ाहे, कलशा और बहुत-से बटोरे देखे। वहाँ कोई भी ऐसा सामान नहीं दिखायी दिया, जो सोनेका बना हुआ न हो। शास्त्रीयत विधिके अनुसार जो सबकुछके घृण बने हुए थे, उनमें भी सोना जड़ा हुआ था। इस प्रकार यह यज्ञशाला पशु, पौ, धन और धान्य सभी द्रव्योमें सम्पन्न एवं आनन्द

उसे देखकर राजाओं को बड़ा विस्मय और वैशोक लिये वहाँ परन स्वादिष्ट करा हुआ था। प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मणों पर बार-बार इन्का पीटा जाता था। धर्मराज रोस इसी कर्मों जानू रहा। अन्तमें बहुतसे देर दिखायी दैते थे। वहीमी नहरे बनी हुई

थी और शोक अनेकों तानाब भरे हुए थे। उस महान् धर्म अनेकों देशोंके लोग जुटे हुए थे। सारा जम्बूद्वीप ही वहाँ एकत्रित दिखायी देता था। हजारों प्रकारकी जातियाँ बहुतसे पात्र लेकर वहाँ उपस्थित होती थीं। सैकड़ों और हजारों पुरुष ब्राह्मणोंको तरह-तुहके जाने-मानेके पदाय परसेते रहते थे। वहाँ ब्राह्मणोंको राजोचित भोजन दिया जाता था।

गका युधिष्ठिरसे अर्जुनका संदेश कहना, अर्जुनका हस्तिनपुरमें आना तथा उत्तूपी और चित्राङ्गदके साथ बभ्रुवाहनका आगमन

शान्पायनजी कहते हैं—राजन्! युधिष्ठिरने अपने हृदमें देवक राजाओंको उपस्थित देखकर मौनमेनसे भाई! यहाँ लेखी राजा पवारे हुए हैं, प्रमो अत्यन्त एवं पूजाके योग्य हैं; अतः तुम उनका यथोचित सत्कार ।। राजाकी आज्ञा पाकर महातेजस्वी मौनमेन नकुल र सहदेवको साथ लेकर जमने जाये हुए राजाओंके अतिथ्य-सत्कारमें लग गये। इसके बाद नगवान् श्रीकृष्ण मान्द्र तथा कृतकर्ता आदि वृष्णिवंशियोंके साथ युधिष्ठिरके अलदेवकीकी जाये करके मात्यकि, ब्रह्मन्, गद, निगठ, पात्र जाये। मौनमेनने उन लोगोंका भी विधिबन् सत्कार किया। फिर वे स्वामि नरे हुए घरमें जाकर रुते लगे। श्रीकृष्ण युधिष्ठिरके पास बैठकर बोड़ी देरतक बात करते रहे। अन्तमें बोले—राजन्! मेरे पास द्वाकाला अर्जुनको अपनी आज्ञा देना था। वे अनेकों न्यायोंपर युद्ध करनेके कारण बहुत दुःख हो गये हैं। उसने यह भी बताया कि महाबाहु अर्जुन अब निरुद्ध आ पहुँचे हैं, इसलिये अब आप अश्वमेध-यज्ञकी सत्काराले लिये आवश्यक कार्य प्रारम्भ कर दीजिये।

और आप दोनोंको सत्ताह करके ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे राजाओंके पारस्परिक द्वेषवग पुनः इन प्रजाओंका संहार न हो। राजन्! उस ननुष्यने अर्जुनकी कही हुई एक बात और बताया थी, उसे भी तुम लीजिये—'इस जमने मणिपुरका राजा बभ्रुवाहन भी जातेवाला है जो महान् तेजस्वी और मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे प्रति उसकी बड़ी प्रीति और अनुरक्ति है, उसके अनिपार आप मेरी अज्ञा उसका विशेष सत्कार करें।'

अर्जुनका संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उसका हृदयमें अस्मितमन करते हुए कहा—'मगवन्! आपने जो यह प्रिय सनाचार सुनाया है उसे मैंने अच्छी तरह सुन लिया। आपका अनूतमय वचन मेरे मनको आनन्दमग्न किये देता है। मेरे सुननेमें आया है कि मित्र-मित्र देशोंमें वहाँके राजाओंके साथ अर्जुनको कई बार युद्ध करने पड़े हैं। इसका क्या कारण है? मैं एकान्तमें बैठकर अर्जुनके बारेमें विचार करता हूँ तो यही जान पड़ता है कि वे सबसे अधिक दुःखके मर्गी हैं। उनका गरीर तो सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है फिर उसमें अगुण लक्षण मौन-सा है, जिसके कारण अधिक कष्ट उठाना पड़ता है।'

युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर मगवान् श्रीकृष्णने बड़े शोककर उत्तर दिया—'राजन्! अर्जुनकी फिल्लियाँ अस्मितसे कुछ अधिक मोटी हैं। इसके सिवा और कोई अगुण लक्षण उनके गरीरमें जुटे भी नहीं दिखायी देता। फिल्लियोंके होनेसे ही उन्हें सदा रास्ता चलना पड़ता है। और कारण नहीं नाजूम होता, जिससे उन्हें दुःख भोगना अर्जुनके सम्बन्धमें विचित्र बातें सुन-सुनकर मौनसे पाण्डव तथा यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण विशेष प्रसन्न हो इन लोगोंमें अभी अर्जुनविषयक बातचीत ही ही चल रही थी वही अर्जुनका नेजा हुआ इत वहाँ आ पहुँचा।

यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे—'भाइव! बड़े मौनमग्नकी बात है कि अर्जुन कुशलपूर्वक लाटे रहे हैं। उन्होंने जो कुछ संदेशा दिया हो, उसे मैं आपके मुँहसे सुनना चाहता हूँ।' मगवान् श्रीकृष्णने कहा—'महाराज! मेरे पास जो मनुष्य आया था, उसने अर्जुनकी बात बाद करके मुझसे इस प्रकार कहा—'श्रीकृष्ण! आप समय देखकर मेरा यह कथन महाराज युधिष्ठिरको भी सुना दीजियेगा। अश्वमेध-यज्ञमें प्रथमः सभी राजा आयेगे। जो लोग आ जायें, उन सबका पूर्ण सत्कार होना चाहिये; यही हमारे योग्य काम है। राजन्मूष्यजमने अर्थ देनेके समय जो दुःखटना हो गयी थी वैसे इस बार नहीं होनी चाहिये। राजा युधिष्ठिर

वृद्धिमान् था। उसने युधिष्ठिरके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अर्जुनके आनेका समाचार सुनाया। उसकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिरकी आँखोंमें आनन्दके आँसू छलक आये और वह प्रिय वृत्तान्त निवेदन करनेके कारण उस वृत्तको पुरस्काररूपमें उन्होंने बहुत-सा धन दिया। दूसरे दिन सबेरे ही अर्जुन आये। चारों ओर इसकी खर्चा होनेसे नगरमें कोलाहल-सा मच गया। यज्ञ सम्बन्धी घोड़ेकी टापसे धूल उड़ने लगी और उसके बीचमें चलता हुआ वह अश्व उच्च-ध्वजके समान शोभा पाने लगा। उस समय सोमोंके मुखसे निकली हुई आनन्ददायिनी बाते अर्जुनको सुनायो देने लगी। सोम कह रहे थे—'पापं। धड़े सोभाग्यकी बात है कि सुभ घोड़ेसहित कुशलपूर्वक सौट आये। तुम्हें पाकर राजा युधिष्ठिर धन्य हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो सारी पृथ्वीपर घोड़ेकी घुमाकर भूमण्डलके समस्त राजाओंपर विजय पा जाय और कुशलपूर्वक सौट आये। अतीत युगमें

जो नगर आदि महात्मा राजा हो चुके हैं, उन्होंने भी कभी ऐसा पुरस्कार किया था, वह हमारे सुननेसे नहीं आया है।' सोमोंकी ये बातें सुनते हुए धर्मिन्मा अर्जुन यज्ञागाराकी ओर चले। उस समय मन्त्रिपौरसहित राजा युधिष्ठिर और पशुनन्दन भगवान् भीहृष्णने घृतराष्ट्रकी भागें करके उनकी अगवाणी की। निष्कट आनेपर अर्जुनने पहले पिताशुभ्य घृतराष्ट्र और धर्मराज युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणाम किया। फिर भीमसेन आदिका विशेष सत्कार करके वे भीहृष्णकी गतसे सगाकर मिले। उन सबने एकजित होकर अर्जुनका सत्कार किया और अर्जुनने भी उन सबका विधिबन्ध पूजन किया। तत्परचात् वे विधाम करने लगे। इसी समय अपनी दोनों माताओंके साथ राजा बभ्रुवाहन भी आ पहुँचा। वह कुपहुसके वृद्ध पुरषों तथा अन्य राजाओंको विधिबन्ध प्रणाम करके उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद अपनी बावी कुन्तीके सुन्दर महत्तमें घसा गया।

बभ्रुवाहन आदिका सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञका आरम्भ

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय। महत्तमें प्रवेश करके बभ्रुवाहनने भीठे वचन बोलकर अपनी दादोके चरणोंमें



प्रणाम किया। इसके बाद देवी धिन्नाङ्गरा और जम्पुनीने भी विनीत भावसे कुन्ती और श्रौषवीके चरण छूये। फिर सुभद्रा तथा कुपकुलकी अन्य स्त्रियोंने भी वे दयायोग्य मिलीं। उस समय कुन्तीने उन दोनोंको नाना प्रकारके रत्न भेट दिये। श्रौषवी, सुभद्रा तथा अन्य स्त्रियोंने भी अपनी क्षोभसे नाना प्रकारके उपहार दिये। तत्परचात् वे दोनों देवियाँ बहुमूल्य शय्याओंपर विराजमान हुईं। कुन्तीने उन दोनोंका बड़ा सत्कार किया। महतिजस्वी बभ्रुवाहन भी कुन्तीसे सत्कार पाकर महाराज घृतराष्ट्रके पास उपस्थित हुआ और विधिके अन्तार उसने उनका चरणस्पर्श किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीमसेन आदि सभी पाण्डवोंके पास जाकर बभ्रुवाहनने विनयपूर्वक उनका अभिवादन किया। उन सब सोमोंने प्रेमवश उसे छातीसे लगा लिया और उसका दसवींघन सत्कार किया। इसी प्रकार वह प्रदुम्नकी भाँति विनीतभावसे शङ्ख-चक्र-गदापाती भगवान् भीहृष्णको सेवामें उपस्थित हुआ। भीहृष्णने उसे एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया, जो सुनहरी साजोसे सज्जाया हुआ, सबके द्वारा प्रसंगित और अत्यन्त उत्तम था। उसमें विष्य घोड़े जुने हुए थे। तत्परचात् धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, मनुज और सहदेवने अलग-अलग बभ्रुवाहनका सत्कार करके उसे बहुत-सा धन दिया।

उसके तीसरे दिन तत्पशुनन्दन शर्चि ध्यानाजी

युधिष्ठिरके पास आकर बोले—'कुन्तोतन्वन ! तुम आजसे यज्ञ आरम्भ कर दो। उसका समय आ गया है। यज्ञका शुभ मुहूर्त उपस्थित है। याज्ञकगण तुम्हें बुरा रहे हैं। तुम्हारे इस यज्ञमें किसी बातकी कमी नहीं रहेगी, यह किसी भी अङ्गसे हीन नहीं होगा, इसलिये 'अर्हान' (सर्वोद्भूत) कहलायेगा। इसमें सुवर्णनामक द्रव्यकी अधिकता है; अतः यह 'बहुसुवर्णक' नामसे विख्यात होगा। महाराज ! यज्ञके प्रधान कारण ब्राह्मण ही हैं, इसलिये तुम उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना; ऐसा करनेसे तुम्हें तीन अश्वमेध-यज्ञोंका फल मिलेगा और तुम जातवधके पापसे भी मुक्त हो जाओगे। इस यज्ञके अन्तमें जो तुम्हें अवसृप-स्नान करनेका अवसर मिलेगा, वह परम पवित्र और पावन बनानेवाला है।'

महायजुष्यके ऐसा कहनेपर धर्मरत्ना राजा युधिष्ठिरने अश्वमेध-यज्ञकी सिद्धिके लिये उसी दिन दीक्षा ग्रहण की और बहुतसे अन्नकी दक्षिणासे युक्त तथा सम्पूर्ण कामना और गुणोंसे सम्पन्न उस महान् यज्ञको आरम्भ कर दिया। उसमें वेदोंके ज्ञाता और सम्पूर्ण विधियोंके जाननेवाले याज्ञकोंने ही सब कर्म कराये। वे सब और धूम-धूमकर अच्छी प्रकार विधिकी उपदेश दिया करते थे। उन्होंने यज्ञमें कहीं भी भूल नहीं की, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। प्रत्येक कार्यको उनके अनुसार और उचित रीतिसे पूरा किया। सोमपान करनेवालोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने शास्त्रीय विधिके अनुसार सोमपानका रस निकालकर अग्निः प्रातःसवन आदि कर्मोंका अनुष्ठान किया। यज्ञमें आया हुआ कोई भी मनुष्य दौन, दरिद्र, भूखा अथवा दुखिया नहीं रह गया था। महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे महान् तेजस्वी भीमसेन भोजनार्थियोंकी भोजन

देनेके कामपर सदा डटे रहते थे। यज्ञकी वेदी बनानेमें निपुण याज्ञकगण प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधिके अनुसार सब कार्य सम्पन्न किया करते थे, उस यज्ञके सदस्योंमें कोई भी ऐसा नहीं था, जो छहों अङ्गोंका विद्यान्, ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करने-वाला, अध्यापनकार्यमें कुशल तथा वाद-विवादमें प्रवीण न हो।

तत्पश्चात् जब यूपकी स्थापनाका समय आया तो याज्ञकोंने यज्ञ-भूमिमें बेलके छः, खैरके छः, पलाशके छः, देवदारुके दो और लसोड़ेका एक—इस प्रकार इकतीस यूप खड़े किये। इनके सिवा धर्मराजकी आज्ञासे भीमसेनने यज्ञकी शोभाके लिये और भी बहुतसे सुवर्णमय यूप खड़े कराये। यज्ञकी वेदी बनानेके लिये सोनेकी ईंटें तैयार करायी गयी थीं। उनके द्वारा जब वेदी बनकर तैयार हुई तो वह दक्ष-प्रजापतिकी यज्ञवेदीके समान शोभा पाने लगी। उस यज्ञमण्डपमें अग्निचयनके लिये चार स्थान बने थे। उन सबकी लंबाई अठारह-अठारह हाथकी थी। उनका आकार गरुड़के समान था, जिसमें सोनेके पंख लगे हुए थे। उन वेदियोंपर त्रिकोण कुण्ड बने हुए थे। उन्हें अग्निस्थापनका कार्य हुआ। किम्पुश्य और किन्नरगण यज्ञशालाकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर सिद्धों और ब्राह्मणोंका निवास था। ब्याजुष्यके शिष्य, जो सम्पूर्ण शास्त्रीक प्रणेतार और यज्ञकर्ममें कुशल थे, उस यज्ञमें सदस्य थे। देवर्षि नारद, तुम्बुह, विश्वावसु, चित्रसेन तथा गानविद्यामें प्रवीण वृसरे-हृस्तर गन्धर्व भी वहाँ मौजूद थे। नाचने और गानेमें कुशल गन्धर्वलोग प्रतिदिन यज्ञकार्य सम्पन्न होनेके बाद अपनी कलाके द्वारा ब्राह्मणोंका मनोरञ्जन करते थे।

युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना और राजाओंको भेंट देकर विदा करना

वैश्यापयनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार इन्द्रके समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिरका यज्ञ पूर्ण हुआ। तत्पश्चात् गिष्योसंहित मगवान् व्यासने उनके अम्युद्यय होनेका आगीवांश दिया। फिर युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक एक हजार करोड़ (एक खरब) स्वर्णमुद्राएँ दक्षिणामें देकर ब्याजुष्यको सम्पूर्ण पृथ्वी दान कर दी। सत्यवतीतन्वन व्यासने उस दानको स्वीकार करके धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा—'राजन् ! तुम्हारी बी हुई इस पृथ्वीको पुनः तुम्हारे ही अधिकारमें छोड़ना है, तुम मुझे इसकी कौमत्त दे दो; क्योंकि ब्राह्मण धनके ही इच्छुक होते हैं (राज्यके नहीं)।' तत्पश्चात् महामना युधिष्ठिरने उन ब्राह्मणोंसे कहा—

'अश्वमेध-यज्ञमें पृथ्वीकी दक्षिणा देनेका विधान है। अतः अजुनके द्वारा जीती हुई यह सारी पृथ्वी मैंने ऋत्विजोंको दे दी है, अब मैं वनमें चला जाऊँगा। आपलोग चातुर्होत्रकी विधिके अनुसार इसे चार भागोंमें बाँट लीजिये। मैं ब्राह्मणकी सम्पत्ति नहीं लेना चाहता। मेरे भाइयोंका विचार भी ऐसा ही रहता है।'

उनके ऐसा कहनेपर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदीने एक स्वरसे कहा—'हां, महाराजका कहना बिल्कुल ठीक है।' इस महान् त्यागकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गये। इसी समय आकाशवाणी हुई—'पाण्डवो ! तुम धन्य हो।' समस्त ब्राह्मण उनके सत्साहसकी प्रशंसा करने

समे । तब भगवान् ध्यासने ब्राह्मणोंके बीसमें सुधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हुए कहा—'राजन् । सुगमे तो यह पुत्र' मुझे दे ही बी है । अब मैं अपनी ओरसे इसे आपस करता हूँ । इसके बदलमें ब्राह्मणोंको सुवर्ण दे दो और पुष्पोंको आगे ही पास रहने दो ।' इसके बाद भगवान् धीहृण्य बोले— 'धर्मराज । भगवान् ध्यास जो आत्मा दे रहे हैं उसीके आगार आपकी कार्य करना चाहिये ।' यह सुनकर क्रुद्धमेव सुधिष्ठिर भाइयोंसहित बहुत प्रसन्न हुए और प्रायेक ब्राह्मणको उज्ज्वि एक-एक करोड़की तिगुनी वक्षिणा दी । महाराज मरणाके मार्गका अनुसरण करनेवाले राजा सुधिष्ठिरने उस समय क्षेता महान् त्याग किया था, वंसा इत संसारमें ब्रूराता कोई नहीं कर सकता । महर्षि ध्यासने यह सुवर्णराशि लेकर ब्राह्मणोंको दे दी और उन्होंने चार भाग करके उसे आपसमें बाँट लिया; इस प्रकार पुष्पोंके मूल्यके रूपमें सुवर्ण लेकर राजा सुधिष्ठिर अपने भाइयोंसहित बहुत प्रसन्न हुए । उनके सारे पाप पुण्य गये और उन्होंने स्वर्गपर अधिकार प्राप्त कर लिया । श्रुतिजने अपनेको मिलते हुई अनन्त सुवर्णकी ढेरियों बड़े आनन्द और उत्साहके साथ डूबरे-डूबरे ब्राह्मणोंको बाँट दिया । यत्नरालामें भी जो कुछ सुवर्ण या सोनेके धाम्युषण, तोरण, मूष, पड़े, बल्लेन और इट्टे सौ, उनको भी सुधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर ब्राह्मणोंने बाँट लिया । ब्राह्मणोंके मनेके बाद की घन बहाँ पड़ा रह गया, उसे दात्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्पर्श जातिके लोग उठा ले गये । धर्मराज सुधिष्ठिरने ब्राह्मणोंको घनने पुनं वृत्त कर दिया था । वे बहुत प्रसन्न होकर अरने-अरने घर गये । उस महानी मुदमेगमिन्नि भगवान् ध्यासको जो अपना भाग मिला था, उसे उन्होंने बड़े आनन्दके साथ

पुत्रीको भेंट कर दिया । स्वर्गपरके क्षेपण कोपुर्णक भिजे हुए पार सायको पाकर पुत्रीकेको बहुत प्रसन्न हुई और पत्नीके पारसे बड़े-बड़े मुष्णकामि बने । उनके मायने मयमुषण पान करके पाररहित हुए राजा सुधिष्ठिर अपनी भाइयोंके साथ इस प्रकार शीघ्रपाये सगे, सौते बिनताओंके साथ बच सुशीलन होते हैं । तबतपार, पाण्डवों भगनी भागे हुए राजाओंको भी सख सखके राज, प्राची, शीघ्रे, मयमुषण, विवली, मान और सुवर्ण भीत बने । फिर राजा मधुवाहनको पास बुलाया और परो बहुत सा भाग लेकर निदा किया । इसके बाद अपनी ब्राह्मण कुशाणको प्रसाताके लगे उज्ज्विने पसा भीनेको सिगुषेके राजापर अर्थापिकन किया । इस प्रकार कुशाण सुधिष्ठिरने सब राजाओंको अपनी सख साप विदा और उगका विशेष साकार बंधके विदा कर दिया । इसन भाग उज्ज्विने धावात् धीहृण्य, महामनी मयराज तथा मयुषण भाई हजारों सुशीलवीरीकी वीर्ययुग्मुष्ण करके उज्ज्वि उज्ज्वि जानेके सिधे रवीहृण्य की । महाराज सुधिष्ठिरका यह सख इस प्रकार पूर्ण हुआ । अगले अरत, सन और शनीकी देदी लगी हुई थी । बड़े दिने सायण बने थे, इनमें शीकी शी कीसङ्ग लगी हुई थी । उनके जो महार्थ थे सङ्गे थे शी शनीकी महिनी बहनी थी । इनकी केली हुआ थी, यमकी कही मरु की प्रत्य और सबकी इच्छायुगा भोजन करणा ज्ञाप—यह घोषणा विदवान करी बहनी थी । सर्वसजने उग सजमें सपकी शानीके मयान ब्रह्मण । सब प्रजापकी कामनाकी, शनी और शनीकी लगी की मया इस प्रकाश सवर्णगत सङ्गे हजारों शीका उज्ज्विने मयन मयामे अरत किया ।



आ गये ? तुममें कौन-सा बल और कितना शास्त्रज्ञान है ? तुम किसके सहारे रहते हो ? हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा ? तुम किस आधारपर हमारे इस यज्ञकी निन्दा करते हो ? हमने नाना प्रकारकी यज्ञ-सामग्री एकत्रित करके शास्त्रीय विधिकी अवहेलना न करते हुए इस यज्ञको पूर्ण किया है। शास्त्र और न्यायके अनुसार प्रत्येक कर्तव्य-कर्मका पालन किया गया है। पूजनीय पुरुषोंकी विधिवत् पूजा की गयी है, अग्निमें मन्त्र पढ़कर आहुति दी गयी है और देनेयोग्य वस्तुओंका ईर्ष्यारहित होकर दान किया गया है। यहाँ नाना प्रकारके दानोंसे ब्राह्मणोंको, उत्तम युद्धके द्वारा क्षत्रियोंको, श्राद्धके द्वारा पितामहोंको, रक्षाके द्वारा वेश्योंको, सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करके उत्तम स्त्रियोंको, दयासे शूद्रोंको, दानसे बची हुई वस्तुएँ देकर अन्य मनुष्योंको तथा राजाके शुद्ध वर्तावसे ज्ञाति एवं सम्बन्धियोंको संतुष्ट किया गया है। इसी प्रकार पवित्र हविष्यके द्वारा वेश्याओंको और रक्षाका भार लेकर शरणागतोंको प्रसन्न किया गया है। यह सब होनेपर भी तुमने क्या देखा या सुना है, जिससे इस यज्ञपर आक्षेप करते हो। इन ब्राह्मणोंके निकट तुम सच-सच बताओ; क्योंकि तुम्हारी बातें विपवास्तके योग्य जान पड़ती हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान् दिखायी देते और दिव्यरूप धारण किये हुए हो। इस समय तुम्हारा ब्राह्मणोंके साथ समागम हुआ है, इसलिये तुम्हें हमारे प्रश्नोंका उत्तर अवश्य देना चाहिये।'

ब्राह्मणोंके इस प्रकार पूछनेपर नेवलेने हँसकर कहा—
 'विप्रवृन्व ! मैंने आपलोगोंसे मिय्या अथवा घमंडमें आकर कोई बात नहीं कही है। मैंने जो कहा है कि 'आपलोगोंका यह यज्ञ उच्छ्वृत्तिवाले ब्राह्मणके द्वारा किये हुए सेरभर सत्त्व दानके बराबर भी नहीं है' इसका कारण अवश्य आप लोगोंको बतानेयोग्य है। अब मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे आपलोग शान्तचित्त होकर सुनो। कुरुक्षेत्रनिवासी उच्छ्वृत्तिधारी दानी ब्राह्मणके सम्बन्धमें मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है, वह बड़ा ही उत्तम एवं अद्भुत है। उस ब्राह्मणके द्वारा न्यायतः प्राप्त हुए थोड़े-से अन्नका दान भी अत्यन्त उत्तम फलका साधक हुआ। यही प्रसंग आपलोगोंको बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहलकी बात है, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें जहाँ बहुत-से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते हैं, कोई ब्राह्मण रहते थे। वे उच्छ्वृत्तिसे ही अपना जीवन-निर्वाह करते थे। कद्दूतरके समान अन्नका दाना चुनकर लाते और उसीसे कुटुम्बका पालन करते थे। वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र-वधूके साथ रहकर तपस्यामें संलग्न थे। ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार-विचारसे रहनेवाले, धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे। वे प्रतिदिन दिनके छठे भागमें ही स्त्री-पुत्र आदिके साथ भोजन किया करते थे। यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला तो दूसरे दिन फिर उसी बेलामें अन्न ग्रहण करते थे। एक बार वहाँ बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। उस समय ब्राह्मणके पास अन्नका संग्रह तो था नहीं और खेतोंका अन्न भी सूख गया था; अतः उनके पास द्रव्यका विल्कुल अभाव हो गया। प्रतिदिन दिनका छठा भाग आकर बीत जाता; किंतु उन्हें समयपर भोजन नहीं मिलता था। बेचारे सब-के-सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन ज्येष्ठके शुक्लपक्षमें दोपहरीके समय वे तपस्वी ब्राह्मण भूख और गर्मीका कष्ट सहते हुए अन्नकी खोजमें निकले। धूमते-धूमते भूख और परिश्रमसे व्याकुल हो उठे तो भी उन्हें अन्नका एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। और दिनोंकी भाँति उस दिन भी उन्होंने अपने कुटुम्बके साथ उपवास करके ही दिन काटा। धीरे-धीरे उनकी प्राण-शक्ति क्षीण होने लगी। इसी बीचमें एक दिन दिनके छठे भागमें उन्हें सेरभर जौ मिल गया। उस ब्राह्मण-परिवारके सब लोग तपस्वी ही थे। उन्होंने जौका सत्त्व तैयार कर लिया और नैतिक नियम एवं जपका अनुष्ठान करके अग्निमें विधिपूर्वक आहुति देनेके पश्चात् वे थोड़ा-थोड़ा सत्त्व वांटकर भोजनके लिये बैठे। इतनेहीमें कोई अतिथि ब्राह्मण वहाँ आ पहुँचा। अतिथिका दर्शन करके उन सबका हृदय हर्षसे खिल उठा। उसे प्रणाम करके उन्होंने कुशल-समाचार पूछा। ब्राह्मणपरिवारके सब लोग विशुद्धचित्त,

जितेन्द्रिय, धृष्टालु, दीपदृष्टिसे रहित, क्रोधको जोतनेवाले, सञ्जन, ईर्ष्याभावसे रहित और धर्मज्ञ थे, उन्होंने अभिमान, मव और क्रोधको सर्वथा त्याग दिया था। क्षुधासे कष्ट पाते हुए अतिथि ब्राह्मणको अपने ब्रह्मचर्य और गोवृत्ता परिचय देकर वे कुटोमें लगे गये। वहाँ उच्छ्वसितवाले ब्राह्मणने कहा—'भगवन् ! आपके लिये यह अर्घ्य, पाण्ड और आसन मौजूद है तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए ये परम पवित्र सत्त्व आपकी सेवामें उपस्थित हैं। मैंने प्रसन्नतापूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया है, आप स्वीकार करें।'

उनके इस प्रकार कहनेपर अतिथिने एक भाग सत्त्व लेकर ला लिया, किंतु उतनेसे उसकी भूख शान्त न हुई। ब्राह्मणने देखा कि अतिथि देवता अब भी भूखे ही रह गये हैं तो वे यह सोचते हुए कि 'इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाय ?' उनके लिये आहारको चिन्ता करने लगे। तब ब्राह्मणकी पत्नीने कहा—'नाथ ! आप अतिथिको मेरा भाग दे दीजिये, उसे साकर पूर्ण तृप्त होनेके बाद इनकी जहाँ इच्छा होगी, चले जायेंगे।' अपनी पतिव्रता पत्नीकी यह बात सुनकर ब्राह्मणने उसकी अवस्थापर विचार किया। वे स्वयं जो भूखका कष्ट उठा रहे थे, उनके द्वारा यह अनुमान करते देर न लगी कि 'यह बंधारी तो खुद ही क्षुधासे दुःख पा रही है।' इसके सिवा, वह तपस्विनी बूढ़ी, धकी हुई और अत्यन्त दुर्बल भी थी। उसके शरीरमें चमड़ेसे ढकी हुई हड्डियोंका ढाँचाभात्र रह गया था और वह सदा काँपती रहती थी; अतः उसे अधिक क्षुधातुर जानकर ब्राह्मणकी उसके हिस्सेका सत्त्व लेना उचित नहीं जान पड़ा, इसलिये उन्होंने अपनी धार्यति कहा—'कन्याणी ! अपनी स्त्रीकी रक्षा और पालन-पोषण करना कौट, पतंग और पशुओंका भी कर्तव्य है। पुत्र्य होकर भी जो स्त्रीके द्वारा अपना पालन-पोषण और संरक्षण करता है, वह मनुष्य दयाका पात्र है। वह उच्चव्रत कौतिसे श्रेष्ठ हो जाता है और उसे उत्तम स्त्रीके प्राप्ति नहीं होती। धर्म, काम और अर्थसम्बन्धी कार्य, सेवा-शुभ्रय, धन-परम्पराकी रक्षा, पितृ-कार्य और स्वधर्मका अनुष्ठान—ये सब स्त्रीके ही अधीन हैं। जो पुत्र्य स्त्रीकी रक्षा करनेमें असमर्थ है, वह संसारमें महान् अपयशका भागी होता है और परलोकमें जानेपर उसे नरकमें गिरना पड़ता है।'

पतिके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणी बोली—'प्राणनाथ ! हम दोनोंके धर्म और अर्थ एक ही हैं, अतः आप भूखपर प्रसन्न हों और मेरे हिस्सेका यह पाचमर सत्त्व लेकर अतिथिको दे दें। स्त्रियोंका सत्य, धर्म, रति, अपने गुणोंसे मिला हुआ स्वयं तथा उनके सारी अभिलाषा पतिके ही अधीन है। माताका रज और पिताका धीर्य—इन दोनोंके मिलनेसे ही बंध-परम्परा

घसती है। स्त्रीके लिये पति ही सबसे बड़ा देवता है। स्त्रीको जो रति और पुत्ररूप फलकी प्राप्ति होनी है, वह पतिका ही प्रसाद है। आप पालन करनेके कारण मेरे पति, भरत-वीरग करनेसे भर्ता और पुत्र प्रदान करनेके कारण बरताता है, इसलिये मेरे हिस्सेका सत्त्व अतिथिदेवताको अर्पण कीजिये। आप भी तो जरा-ओषण बूढ़, क्षुधातुर, अत्यन्त दुर्बल, उपवाससे थके हुए और क्षीणकण्य ही रहे हैं (चिर आप जिस तरह भूखका बलो सहन करते हैं उसी प्रकार मैं भी सह लूँगी)।'

पत्नीके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने सत्त्व लेकर अतिथिने कहा—'द्विजवर ! यह सत्त्व भी प्रथम कीजिये।' अतिथि यह सत्त्व भी लेकर खा गया; किंतु उसे संतोष न हुआ। यह देखकर उच्छ्वसितवाले ब्राह्मणकी बड़ी चिन्ता हुई। तब उनके पुत्रने कहा—'पिताजी ! मेरा सत्त्व लेकर आप ब्राह्मणकी दे शलिये। मैं इसीमें पुत्र्य सम्पत्ता हूँ, इसलिये



ऐसा कर रहा हूँ। मुझे सदा मत्त्वपूर्वक आपका पालन करना चाहिये; क्योंकि साधु पुत्र्य बूढ़े पितृके पालन-पोषणकी सदा ही अभिलाषा किया करते हैं। पुत्र होनेका यहो फल है कि यह बुद्धावस्थामें पितृकी रक्षा करे। श्रुतिकी यह मनातन आता तीनों स्त्रीके प्रसिद्ध है (अतः आप यह सत्त्व देनेमें कुछ अन्यथा विचार न करें)।'

पिताने कहा—बेटा ! तुम हजार वर्षके हो जाओ तो भी मेरे लिये बालक ही हो। पिता पुत्रको जन्म देकर ही उससे अपनेको कृतकृत्य समझता है। मैं जानता हूँ, बच्चोंकी भूल प्रबल होती है; मैं तो बूढ़ा हूँ, भूलें रहकर भी प्राण धारण कर सकता हूँ। जीर्ण अवस्था हो जानेके कारण मुझे भूलसे अधिक कष्ट नहीं होता। इसके सिवा, मैं दीर्घ कालतक तपस्या कर चुका हूँ, अतः अब मुझे मरनेका भय नहीं है। तुम अभी बालक हो, इसलिये बेटा ! तुम्हीं यह सत्त्व खाकर अपने प्राणोंकी रक्षा करो।

पुत्र बोला—पिताजी ! मैं आपका पुत्र हूँ। पुरुषका द्राण करनेके कारण ही संतानको 'पुत्र' कहा गया है। इसके सिवा पुत्र पिताका अपना ही आत्मा माना गया है, अतः आप अपने आत्मभूत पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये।

पिताने कहा—बेटा ! तुम रूप, सदाचार और इन्द्रियसंयममें मेरे ही समान हो। तुम्हारे इन गुणोंकी मैंने अनेकों बार परीक्षा कर ली है। अब मैं तुम्हारा सत्त्व लेकर अतिथिको देता हूँ।

यह कहकर ब्राह्मणने प्रसन्नतापूर्वक वह सत्त्व ले लिया और हँसते-हँसते अतिथिको परोस दिया। उसे खा लेनेपर भी अतिथि देवताका पेट न भरा। यह देखकर उच्छ्वसित-धारी धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े संकोचमें पड़ गये। उनकी पुत्र-वधू भी बड़ी सुशीला थी। वह अपने श्वशुरकी स्थितिको समझ गयी और उनका प्रिय करनेके लिये सत्त्व लेकर उनके पास जा बड़ी प्रसन्नताके साथ बोली—'पिताजी ! आप मेरे हिस्सेका यह सत्त्व लेकर अतिथि देवताको दे दीजिये।'

श्वशुरने कहा—बेटी ! हवा और धूपके मारे तुम्हारा सारा शरीर सूख रहा है। तुम्हारी कान्ति फीकी पड़ गयी है। उत्तम व्रत और आचारका पालन करते-करते तुम अत्यन्त दुर्बल हो गयी हो। भूलके कष्टसे तुम्हारा चित्त व्याकुल है, तुम्हें ऐसी अवस्थामें देखकर भी तुम्हारे हिस्सेका सत्त्व कैसे ले लूँ ? ऐसा करनेसे मेरे धर्ममें बाधा आयेगी। तुम प्रतिदिन शौच, सदाचार और तपस्यामें संलग्न रहकर दिनके छठे भागमें आहार करती हो। आज अन्न न मिलनेके कारण तुम्हें उपवास करती कैसे देख सकूँगा ? तुम भूलसे व्याकुल हुई बालिका एवं अबला हो, उपवासके कारण बहुत थक गयी हो और सेवा-शुभ्रपाके द्वारा बन्धु-बान्धवोंको सुख पहुँचाती हो, इसलिये तुम्हारी तो मुझे सदा ही रक्षा करनी चाहिये।

पुत्र-वधू बोली—मगवन् ! आप मेरे गुरुके भी गुरु और देवताके भी श्वशुर हैं, अतः मेरा दिया हुआ सत्त्व

अवश्य स्वीकार कीजिये। मेरा यह शरीर, प्राण और धर्म सब कुछ बड़ोंकी सेवाके लिये ही है। आपकी प्रसन्नतासे ही मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है, अतः आप मुझे अपनी दृढ़ भक्त, रक्षणीय अथवा कृपापात्र समझकर अतिथिको देनेके लिये मेरा यह सत्त्व स्वीकार कीजिये।

श्वशुरने कहा—बेटी ! तुम पतिव्रता हो और सदा ऐसे ही उत्तम शील एवं सदाचारका पालन करनेमें तुम्हारी शोभा है। तुम धर्म तथा व्रतके आचरणमें संलग्न होकर हमेशा गुरुजनोंकी सेवापर दृष्टि रखती हो, इसलिये तुम्हें पुण्यसे वञ्चित न होने दूँगा और श्रेष्ठ धर्मात्माओंमें तुम्हारी गिनती करके तुम्हारा दिया हुआ सत्त्व अवश्य स्वीकार करूँगा।

यह कहकर ब्राह्मणने उसके हिस्सेका भी सत्त्व लेकर अतिथिको दे दिया। उच्छ्वसितधारी महात्मा ब्राह्मणका यह अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तवमें पुरुष शरीर धारण करके साक्षात् धर्म ही अतिथिके रूपमें उपस्थित हुए थे, उन्होंने ब्राह्मणसे कहा—'विप्रवर ! तुमने अपनी शक्तिके अनुसार धर्मपर दृष्टि रखते हुए न्यायोपाजित अन्नका शुद्ध हृदयसे दान किया है, इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। अहो ! स्वर्गमें रहनेवाले देवता भी तुम्हारे दानकी घोषणा करते रहते हैं। यह देखो, आकाशसे फूलोंकी वर्षा हो रही है। देवता, ऋषि, गन्धर्व और देवदूत भी तुम्हारे दानसे विस्मित होकर आकाशमें खड़े-खड़े तुम्हारी स्तुति करते हैं। ब्रह्मलोकमें विचरनेवाले ब्रह्मर्षि विमानपर बैठकर तुम्हारे दर्शनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तुम दिव्य-लोकको जाओ। पितृलोकमें तुम्हारे जितने पितर थे, उन सबको तुमने तार दिया तथा अनेकों युगोंतक भविष्यमें होनेवाली जो संतानें हैं, वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य, दान, तपस्या और शुद्ध धर्मके अनुष्ठानसे तर जायेंगी। तुमने बड़ी श्रद्धाके साथ तप किया है, उसके प्रभावसे और दानसे सब देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। संकटके समय भी तुमने शुद्ध हृदयसे यह सारा-का-सारा सत्त्व दान किया है। भूल मनुष्यकी बुद्धिको चौपट कर देती है, उसके धार्मिक विचारोंका लोप हो जाता है; किंतु ऐसे समयमें भी जिसकी दानमें रुचि होती है, उसके धर्मका ह्रास नहीं होता। तुमने स्त्री और पुत्रके स्नेहकी उपेक्षा करके धर्मको ही श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूल-प्यासको भी कुछ नहीं गिना है। मनुष्यके लिये सबसे पहले न्यायपूर्वक धनकी प्राप्तिका उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है। उस धनको सत्पात्रकी सेवामें अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है। साधारण समयमें दान देनेकी अपेक्षा उत्तम समय पर दान देना और भी अच्छा है, किंतु श्रद्धाका

महत्त्व कालसे भी बढ़कर है। श्रद्धापूर्वक दान देनेवाले मनुष्यमें यदि एक हजार देनेकी शक्ति हो तो वह सौका दान करे, सौ देनेकी शक्तिवाला बसका दान करे तथा जिसके पास कुछ न हो, वह यदि अपनी शक्तिके अनुसार षोडश-सा दान ही दान कर दे तो इन सबका फल बराबर ही माना गया है। कहते हैं, राजा रत्नदेवके पास जब कुछ नहीं रह गया था तो उन्होंने शुद्ध हृदयसे केवल जलका दान किया था। अन्याय-पूर्वक प्राप्त हुए द्रव्यके द्वारा महान् फल देनेवाले बड़े-बड़े दान करनेसे धर्मको प्रसन्नता नहीं होती। धर्म देवता तो न्यायोपाजित धोड़े-से अन्नका भी श्रद्धापूर्वक दान करनेसे ही संतुष्ट होते हैं। राजा नृगने ब्राह्मणोंको हजारों गोए दान की थीं; किंतु एक ही गो उन्होंने दूरेकी दान कर दी, जिससे अन्यायतः प्राप्त द्रव्यका दान करनेके कारण उन्हें नरकमें जाना पड़ा। उसीनरके पुत्र राजा शिबि श्रद्धापूर्वक अपने शरीरका मांस देकर भी पुण्यात्माओंके लोकमें आनन्द भोगते हैं। न्यायपूर्वक एकत्रित किये हुए धनका दान करनेसे जो लाभ होता है, वह बहुत-सी दसिणावाले अनेकों राजसूय-यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे भी नहीं होता। तुमने सेरभर सत्तूका दान करके असय ब्रह्मलोकपर विजय पायी है, बहुत-से अश्वमेध-यज्ञ भी तुम्हारे इस दानके फलकी समानता नहीं कर सकते। अतः द्विजश्रेष्ठ! तुम रजोगुणसे रहित अश्व-धामको सुखपूर्वक पधारो। तुम सब लोगिके लिये दिव्य विमान उपस्थित है। इसपर सवार हो जाओ। मेरी ओर दृष्टि डालो, मैं साक्षात् धर्म हूँ। तुमने अपने शरीरका उद्धार कर दिया। संसारमें तुम्हारा धरा सदा ही कायम रहेगा।

नेवलेने कहा—धर्मके ऐसा कहनेपर वे ब्राह्मणदेवता अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र-युक्तके साथ विमानमें बैठकर ब्रह्म-लोकको चले गये। उनके जानेके बाद मैं अपने चित्तमें बाहर

निकला और जहाँ अतिथिने भोजन किया था, उस स्थानपर चोटने लगा। उस समय सत्तूकी गन्ध सूंघने, बर्षा गिरे हुए जलको कीचसे सम्पर्क होने, दिव्य पुष्पोंको रोहने और उन महात्मा ब्राह्मणके दान करते समय गिरे हुए अन्नके कणोंमें मूँह लगा देने तथा ब्राह्मणकी तपस्याके प्रभावसे मेरा मांसक और आधा शरीर सोनेका हो गया। उनके तपका यह महान् प्रभाव आपत्तोग अपनी आँसों देस लीजिये। ब्राह्मणों! जब मेरा आधा शरीर सोनेका हो गया तो मैं इस चिन्तमें पड़ा कि 'बाकी शरीर भी किस उपायसे ऐसा ही हो सकता है?' इसी उद्देश्यसे मैं बारंबार अनेकों तपोवनों और यज्ञस्थलोंमें प्रसन्नतापूर्वक ध्यान करता रहा हूँ। महाराज युधिष्ठिरके इस यज्ञका भारी शोर सुनकर मैं बड़े आशा लगाये यहाँ आया था; किंतु मेरा शरीर सोनेका न हो सका। इसीसे मैंने हँसकर कहा था कि 'यह यज्ञ ब्राह्मणके लिये हुए सेरभर सत्तूके बराबर भी नहीं हुआ है।' क्योंकि उस समय सेरभर सत्तूमें गिरे हुए कुछ कणोंके प्रभावसे मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हो गया था। परंतु यह महान् यज्ञ भी मूँह बँता न बना सका; अतः उसके साथ इसकी कोई तुलना नहीं है।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! ब्राह्मणोंसे यह कहकर नेवला बहसि गापब हो गया और ब्राह्मण भी अपने-अपने घर चले गये। यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। उस महान् अश्वमेध-यज्ञमें यहाँ एक आश्वमेधकी घटना हुई थी। उस यज्ञके विषयमें ऐसी घटना सुनकर तुम्हें किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिये। हजारों श्रेष्ठि यज्ञ न करके केवल तपस्याके ही बलसे दिव्यलोकको प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी प्राणीसे होह न करना, संतोष, शील, सरलता, तप, इन्द्रियसंयम, सत्य और दान—इनमेंसे एक-एक गुण बड़े-बड़े यज्ञोंकी समानता करनेवाला है।

महर्षि अगस्त्यके यज्ञकी कथा

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन्! उच्छृण्वति धारण करने-वाले ब्राह्मणको न्यायतः प्राप्त हुए सत्तूका दान करनेसे जिस महान् फलकी प्राप्ति हुई, उसका आपने वर्णन किया। निःसंदेह यह बात ठीक है; परंतु हर एक यज्ञमें इस उत्तम निश्चयको किस प्रकार काममें लाया जा सकता है? (क्योंकि न्यायतः प्राप्त धन तो बहुत थोड़ा होता है, उससे बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान कैसे हो सकता है?)

वैशम्पायनजीने कहा—राजन्! (अधिक धनका संग्रह किये बिना ही महान् यज्ञोंका अनुष्ठान हो सकता है) इस विषयमें पहले अगस्त्य मुनिके महान् यज्ञमें जो घटना घटित हुई थी, उन प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाना है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संतान रहनेवाले महान् देवकी महर्षि अगस्त्यने एक समय बाह्य बर्षोंमें समाप्त हो यज्ञकी शोशा ली थी। उन महारामके यज्ञमें अग्नि

तेजस्वी होता थे, जिनमें फल-मूलका आहार करनेवाले अश्मकृष्ट,^१ मरीचिप,^२ परिपृष्टिक,^३ वैषसिक^४ और प्रसंख्यान^५ आदि अनेकों प्रकारके यति एवं मिश्र थे। वे सभी प्रत्यक्ष धर्मका पालन करनेवाले, क्रोधको जीतनेवाले, जितेन्द्रिय, मनोनिग्रहपरायण, हिंसा और दम्भसे दूर और सदा शुद्ध आचारमें स्थित रहनेवाले थे। ऐसे-ऐसे नहंयि उस यज्ञमें उपस्थित हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत-से ऋषि-मुनियोंने उस महान् यज्ञका अनुष्ठान पूरा किया था। महर्षि अगस्त्य जब इस प्रकार यज्ञ कर रहे थे, उस समय इन्द्रने संसार में पानी बरसाना बन्द कर दिया। तब यज्ञ-कर्मके बीच-बीचमें मुनिलोग अगस्त्यजीके सम्बन्धमें परस्पर इस प्रकार चर्चा करने लगे—'ब्राह्मणो! ये अगस्त्यजी यज्ञ-कर्ममें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन द्रव्यशून्य हृदयसे अन्न-दान करते हैं। इधर बादल पानी नहीं बरसते; ऐसी दशामें अन्नकी उपज कैसे होगी? यह महान् यज्ञ बारह वर्षोंतक चलता रहेगा और उतने समयतक इन्द्र वर्षा नहीं करेंगे। इस बातपर मलीर्माति विचार करके आपलोग इन तपस्वी महात्माके ऊपर अनुग्रह करें।'

ऋषियोंकी यह बात सुनकर महाप्रतापी अगस्त्य मुनिने तिर नुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा—'यदि इन्द्र बारह वर्षोंतक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं चिन्ता-यज्ञ कहेगा अर्थात् संकल्पमात्रसे ही मेरे यज्ञका अनुष्ठान चालू रहेगा अथवा स्पर्श-यज्ञ कहेगा—संचित द्रव्यका व्यय किये बिना ही उसके स्पर्श-मात्रसे देवताओंको तृप्त कहेगा। यह भी यज्ञकी एक सनातन विधि है अथवा यदि बारह वर्षोंतक इन्द्र पानी नहीं बरसावेंगे तो मैं व्रत-नियमोंका पालन करता हुआ ध्यानद्वारा ध्येय-रूपसे स्थित होकर इन यज्ञोंका अनुष्ठान कहेगा। यह वीज-यज्ञ मेरे द्वार बहुत वर्षोंतक चालू रह सकता है। बीजोंसे ही अपना यज्ञ पूर्ण कर लूंगा। उसमें कोई विघ्न-बाधा नहीं आ सकती। इन्द्र वर्षा करें या न करें; किंतु मेरा यह यज्ञ कभी बंद नहीं हो सकता। मैं स्वयं ही इन्द्र होकर समस्त प्रजाकी जीवनरक्षा कहेगा। जिस प्राणीका जो आहार है उसको वही मिलेगा अथवा मैं आवश्यकतानुसार विशेष आहारका प्रबन्ध भी प्रचुरमात्रामें कर सकता हूँ। इस समय तीनों लोकोंमें जितना सोना और धन है, वह स्वयं यहाँ उपस्थित

हो जाय। दिव्य अप्सराएँ, गन्धर्व, किन्नर, विश्वावसु तथा दूसरे स्वर्गवासी भी यहाँ आकर मेरे यज्ञकी उपासना करें।



उत्तर कुर्देशमें जितना धन हो, वह सब यहाँ आ जाय। स्वर्ग, स्वर्गमें रहनेवाले देवता और धर्म भी स्वयं ही इस यज्ञमें आकर उपस्थित हो जायें।'

महर्षि अगस्त्यके इतना कहते ही उनके तपके प्रभावसे सब कुछ बंसा ही हो गया। उन तेजस्वी महर्षिकी तपस्याका यह महान् बल देखकर मुनियोंको बड़ा हर्ष हुआ। वे विस्मित होकर कहने लगे—'महर्षे! आपकी बातोंसे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम आपके यज्ञोंसे ही संतुष्ट हैं। न्यायसे उपाजित किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन है। हम सदा अपने कर्मोंमें लगे रहते हैं। अब इस यज्ञकी समाप्ति होनेतक हम यहाँ उपस्थित रहेंगे और अन्तमें आपकी आज्ञा लेकर यहाँसे जायेंगे।' वे इस प्रकार बात कर रहे थे, इतनेहीमें महर्षिका तपोबल देखकर देवराज इन्द्रने पानी बरसाना आरम्भ किया। जबतक उनका यज्ञ समाप्त नहीं हुआ तबतक वहाँ इच्छानुसार वृष्टि होती रही। देवराजने बृहस्पतिजीको आगे करके स्वयं ही मुनिके पास उपस्थित होकर उन्हें प्रसन्न किया। तदनन्तर, यज्ञ पूर्ण होनेपर अगस्त्यजी बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ आये हुए महर्षियोंकी विधिवत् पूजा करके उन्होंने सबको विदा कर दिया।

१. खाद्य पदार्थको पत्थरपर फोड़कर खानेवाले।
२. मूयकी किरणोंका पान करनेवाले।
३. पृष्ठकर दिये हुए अन्नकी ही लेनेवाले।
४. यज्ञशिष्ट अन्नको ही भोजन करनेवाले।
५. एक समयके लिये ही अन्न ग्रहण करनेवाले अथवा तत्त्वका विचार करनेवाले।

सफल है, जो मेरे भक्त हैं। हजारों जन्मोंतक तपस्या करनेसे जब मनुष्योंका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें भवितका उदय होता है। मेरा जो अत्यन्त गोपनीय, कूटस्थ, अचल और अविनाशी परस्वरूप है उसका मेरे भक्तोंको जैसा अनुभव होता है वैसा देवताओंको भी नहीं होता और जो मेरा अवर-स्वरूप है वह अवतार लेनेपर दृष्टिगोचर होता है। संसारके समस्त जीव सब प्रकारके पदार्थोंसे मेरे स्वरूपकी पूजा करते हैं। जो मनुष्य मुझे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहारका कारण समझकर मेरी शरण लेता है, उसके ऊपर कृपा करके मैं उसे संसार-बन्धनसे मुक्त कर देता हूँ। मैं ही देवताओंका आदि हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओंकी मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मासे लेकर छोटे-से कीड़ेतक सबमें मैं व्याप्त हो रहा हूँ। द्युलोकको मेरा मस्तक समझो। सूर्य और चन्द्रमां मेरी आँखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी साँस है। आठ दिशाएँ मेरी बाँहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और सम्पूर्ण भूतोंको अवकाश देनेवाला अन्तरिक्ष मेरा वक्षःस्थल है। वादलों और हवाके चलनेका जो मार्ग है, उसे मेरा अविनाशी उदर समझो। द्वीप, समुद्र और जंगलोंसे भरा हुआ यह भूमण्डल मेरे दोनों पैरोंके स्थानमें है। मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएँ, हजारों उदर, हजारों ऊरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वीको सब ओरसे धारण करके समस्त ब्रह्माण्डसे दस अंगुल ऊँचे

अर्थात् सबसे परे विराजमान हूँ। सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा हूँ, इसलिये सर्वव्यापी कहलाता हूँ। मैं अचिन्त्य, अनन्त, अजर, अजन्मा, अनादि, अवध्य, अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण, गूढस्वरूप, निर्द्वन्द्व, निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्षका आदि कारण हूँ। सुधा, स्वधा और स्वाहा भी मैं ही हूँ। मैं चारों आश्रमोंका धर्म, चार प्रकारके होताओंसे सम्पन्न होनेवाला यज्ञ, चतुर्व्यूह, चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमोंको प्रकट करनेवाला हूँ। प्रलयकालमें समस्त जगत्का संहार करके उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योगका आश्रय ले मैं एकार्णवके जलमें शयन करता हूँ। एक हजार युगोंतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होनेतक महार्णवमें शयन करनेके पश्चात् स्थावर-जङ्गम प्राणियोंकी सृष्टि करता हूँ। प्रत्येक कल्पमें मेरे द्वारा जीवोंकी सृष्टि और संहारका कार्य होता है; किंतु मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते। राजन्! कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जिसमें मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है, जो मुझमें स्थित न हो। अधिक कहनेसे क्या लाभ, मैं तुमसे सच्ची बात बत रहा हूँ, भूत और भविष्य जो कुछ है, वह सब मैं ही हूँ। सम्पूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं। फिर भी मेरी मायासे मोहित रहते हैं, इसलिये मुझे नहीं जान पाते। इस प्रकार देवता, असुर और मनुष्योंसहित समस्त संसारका मुझसे ही जन्म और मुझमें ही लय होता है।”

चारों वर्णोंके कर्म और उनके फलोंका वर्णन तथा धर्मकी वृद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने सम्पूर्ण जगत्को अपनेसे उत्पन्न बतलाकर धर्मनन्दन युधिष्ठिरसे पवित्र धर्मोंका इस प्रकार वर्णन आरम्भ किया—‘पाण्डुनन्दन! जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित्त होकर तपस्यामें संलग्न हो स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करनेवाले जानने योग्य धर्मका श्रवण करता है, उस श्रद्धालु पुरुषके— विशेषतः मेरे भक्तके पूर्वसंचित जितने पाप होते हैं, वे सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं।’

श्रीकृष्णका यह परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन-ही-मन प्रसन्न हो धर्मके अद्भुत रहस्यका चिन्तन करते हुए सम्पूर्ण देवर्षि, ब्रह्मर्षि, गन्धर्व, अप्सराएँ, भूत, यक्ष, ग्रह, गुह्यक, सर्प, महात्मा बालखिल्य, तत्त्वदर्शी योगी तथा भगवद्भक्त पुरुष उत्तम वैष्णव-धर्मका उपदेश सुनने तथा भगवान्को वात हृदयमें धारण करनेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित होकर

वहाँ आये। आनेके बाद उन सबने मस्तक झुकाकर भगवान्को प्रणाम किया। भगवान् की दिव्य दृष्टि पड़नेसे वे सब निष्पाप हो गये। उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्ठिरने भगवान्को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया— ‘जगदीश्वर! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रकी पृथक्-पृथक् कौसी गति होती है? इन सबके कर्मोंके फलका वर्णन कीजिये।’

भगवान्ने कहा—धर्मराज! ब्राह्मणादि वर्णोंके क्रमसे धर्मका वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण शिखा और यज्ञोपवीत धारण करते, संध्योपासना करते, पूर्णाहुति देते, विधिवत् अग्निहोत्र करते, बलिबैश्वदेव और अतिथियोंका पूजन करते, नित्य स्वाध्यायमें लगे रहते तथा जप-यज्ञका अनुष्ठान किया करते हैं; जो सार्यकाल और प्रातःकाल होम करनेके बाद ही अन्न ग्रहण करते, शूद्रका अन्न नहीं खाते, दम्भ और मिथ्या भाषण-

से दूर रहते, अपनी ही स्त्रीसे प्रेम रखते तथा पशुधन और अग्निहोत्र करते रहते हैं, वे ब्राह्मण पावरहित होकर बह्यलोकाको प्राप्त होते हैं ।

स्त्रियोंमें भी जो राज्यसिंहासनपर आसीन होनेके बाद अपने धर्मका पालन और प्रजाको मत्तोर्माति रखा करता है, सगानके रूपमें प्रजाको आमवनीका छटा भाग लेकर सदा उत्तमसे ही संतोष करता है, यज्ञ और दान करता रहता है, धर्म रखता है, अपनी स्त्रीसे संतुष्ट रहता है, शास्त्रके अनुसार चलता, तत्त्वको जानता और प्रजाको भसाइके काममें संलग्न रहता है तथा ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण करता, पोष्यधर्मके पालनमें तत्पर रहता, प्रतिभाको सत्य करके दिखाता, सदा पवित्र रहता एवं सोम और दम्भको त्याग देता है, उसे भी देवताओंद्वारा सेवित उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है ।

जो वैश्य कृषि और गो-पालनमें लगा रहता है, धर्मका अनुसंधान किया करता है; दान, धर्म और ब्राह्मणोंकी सेवामें संलग्न रहता है तथा सत्यप्रतिष्ठ, निरय पवित्र, सोम और दम्भसे रहित, सरल, अपनी ही स्त्रीसे प्रेम रखनेवाला और हिसाबोहिसे दूर रहनेवाला है, जो कभी भी वैश्यधर्मका त्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें लगा रहता है, यह अप्सराओंसे सम्मानित होकर स्वर्गलोकमें गगन करता है ।

कुट्टमिसे जो सदा तीनों वर्णोंकी सेवा करता और विरोधतः ब्राह्मणोंकी सेवामें बातकी मति लम्बा रहता है; जो बिना मीचे ही दान देता, सत्य और शौचका पालन करता, गुह और देवताओंकी पूजामें प्रेम रखता, परस्त्रीके संसर्गसे दूर रहता, दूसरोंको कष्ट न पहुँचाकर अपने कुटुम्बका पालन-पोषण करता और सब जीवोंको धमय-दान कर देता है, उसको भी स्वर्गको प्राप्ति होती है ।

इस प्रकार धर्मसे बड़कर दूसरा कोई साधन नहीं है । वही निष्कामभावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे मुक्ति मिलता है । धर्मसे बड़कर पाप-नाशका और कोई उपाय नहीं है; इसलिये इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा धर्मका पालन करते रहना चाहिये । धर्मानुरागी पुरुषोंके लिये संसारमें कोई बस्तु दुर्लभ नहीं है । ब्रह्माजीके इस अग्रजके जिहा वर्णके लिये जैसे धर्मका विधान किया है, वह बने ही धर्मका मत्तोर्माति आचरण करके अपने पापोंको मष्ट कर सकता है । मनुष्यका जो आतिथ्य धर्म है, उसका किसीको त्याग नहीं करता चाहिये । वही उसके लिये धर्म होता है और उसीका निष्कामभावसे आचरण करनेपर मनुष्यको सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त हो जाती है । अपना धर्म मुश्किल होनेपर भी पापको मष्ट करता है । इसी प्रकार यदि मनुष्यके पापकी बुद्धि होती है तो वह उसके धर्मको क्षीण कर सकता है ।

मुष्टिद्वारेण पूजा—मृगवन् । मृग और मनुष्यकी बुद्धि और हुमा किस प्रकार होते हैं, इसे मुननेकी मेरी बड़ी उत्कण्ठा है ।

मृगवानुने कृत्वा—मृगने जो कुछ पूजा है, उसे मुनी । पापको पूजारीके कहने और उसके लिये पाचात्ताप करनेसे प्रायः उसका नाश हो जाता है । इसी प्रकार धर्म भी अपने भूधर्म द्वारापर प्रकट करनेपर मष्ट होता है । छिपायेपर ये दोनों ही बन्ते हैं । इसलिये तापमदार मनुष्यको चाहिये कि सर्वथा उद्योग करके अपने पापको प्रकट करे । उसे छिपानेकी कोशिश न करे । पापका बीज उतके माताका कारण होता है, इसलिये हृदय-पापको प्रकट करना और धर्मको गृहण रखना चाहिये ।

निरर्थक जन्म, दान और जीवनका वर्णन, सात्त्विक आदि दानोंका लक्षण, दानका योग्य पात्र और ब्राह्मणकी महिमा

यैश्यायनजी कहते हैं—मनमेव । सत्यत्वर, धर्म-दान मुष्टिद्वारेण मगवानुते पुनः धर्मके विषयमें प्रश्न किया—'पुष्टोत्तम । किन्ते जग्न धर्मं पापमं जाते ? किन्ते प्रकारके दान निष्फल होते हैं ? और किन्निचन मनुष्योंका जीवन निरर्थक माना गया है ? शांतिष्व, राजस और तामस दान कौन होते हैं ? उनसे जिसकी मुक्ति होती है ? उत्तम दानका इच्छन क्या है ? और उससे किस कसकी प्राप्ति होती है ? यह कसके ही हुमा कीर्ति । मैं इस विषय-

की जानना चाहता हूँ और इसे मुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है ।

मृगवानुने कृत्वा—मृगवन् । मैं मुनेके धर्मके उद्योग-कार्य एवं उत्तम उपदेश सुनता हूँ, त्याग देना मुझे । यह विषय पाप पवित्र और मनुष्य पापको मष्ट करता है । और जन्म धर्म मष्ट करने हैं । उत्तम दान दान निष्फल होते हैं और किन्निचन मनुष्योंका जीवन निरर्थक होता है, उनकी मरणात् उत्कण्ठा है ।

क्रमशः वर्णन करेगा। धर्मका नाश करनेवाले, लोभी, पापी, बलिवैश्वदेव किये बिना भोजन करनेवाले, परस्त्रीगामी, भोजनमें भेद करनेवाले, असत्यभाषी, वन्धु-बन्धवोंको क्लेश देकर अकेले ही मिठाई उड़ानेवाले, माता-पिता, अध्यापक-गुरु और मामा-भाम्मीको मारने या गाली देनेवाले, ब्राह्मण होकर भी संध्या न करनेवाले, अग्निहोत्रका त्याग करनेवाले, श्राद्ध-तर्पणसे दूर रहनेवाले, ब्राह्मण होकर शूद्रका अन्न खाने-वाले तथा मेरी, शंकरजीकी, ब्रह्माजीकी अथवा ब्राह्मणोंकी भक्ति न करनेवाले—ये चौदह प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं। इन्हीं पापियोंके जन्मको व्यर्थ समझना चाहिये।

जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया जाता है, जिसे दिखावेके लिये दिया जाता है, जो पालण्डीको प्राप्त हुआ है, जिसे शूद्रके समान आचरणवाले पुरुषने ग्रहण किया है, जिसे देकर अपने ही मुँहसे वारंवार बखान किया गया है, जिसे शौचपूर्वक दिया गया है तथा जिसको देकर पीछेसे उसके लिये शोक प्रकट किया गया है; जो दम्भसे उपार्जित अन्नका, मूठ चोलकर लाये हुए अन्नका, ब्राह्मणके धनका, चोरी करके लाये हुए द्रव्यका तथा कलंकी पुरुषके घरसे लाये हुए धनका दान किया गया है; जो पतित ब्राह्मणको दिया गया है; जिस दान-को वस्तुको वेदविहीन पुरुषोंने, सबके यहाँ याचना करने-वालोंने, संस्कारहीन पतितोंने तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करनेवाले पुरुषोंने ग्रहण किया है; जो दान वेश्यागामीको और रासुरालमें रहकर गुजारा करने-वाले ब्राह्मणको दिया गया है; समूचे गाँवसे याचना करने-वाले, कृतघ्न, उपपातकी, वेद बेचनेवाले, राजसेवक, ज्योतिषी, तान्त्रिक, शूद्र जातिकी स्त्रीके साथ सम्बन्ध रखनेवाले, अस्त्र-शस्त्रों जीविका चलानेवाले, नौकरी करनेवाले, साँप पकड़ने-वाले, पुरोहिती करनेवाले, वैद्य, बनियेका काम करनेवाले, क्षुद्र मन्त्र जपकर जीविका चलानेवाले, शूद्रके यहाँ गुजारा करनेवाले, वेतन लेकर मन्दिरमें पूजा करनेवाले, देवोत्तर सम्पत्तिको खा जानेवाले, तस्वीर बनानेका काम करनेवाले, रंग-भूमिमें नाच-कूदकर जीविका चलानेवाले, भांस बेचकर जीवन-निर्वाह करनेवाले, सेवाका काम करनेवाले, ब्राह्मणो-चित्त आचारसे हीन होकर भी अपनेको ब्राह्मण बतानेवाले, उपदेश देनेकी शक्तिसे रहित, व्याजखोर, अनाचारी, अग्नि-होत्र न करनेवाले, संध्योपासनासे अलग रहनेवाले, शूद्रके गाँवमें निवास करनेवाले, मूठे ही महात्माओंके-से वेश धारण करनेवाले, सबके साथ और सब कुछ खानेवाले, नास्तिक, धर्मविक्रता, नीच वृत्तिवाले, मूठी गवाही देनेवाले तथा फूटनीतिका आश्रय लेकर गाँव के लोगोंमें लड़ाई-झगड़ा फरानेवाले ब्राह्मणको जो दान दिया जाता है, वह सब निष्फल

होता है। उपर्युक्त ब्राह्मणोंको दिये हुए दान बहुत हों तो भी राखमें डाली हुई धोकी आहुतिकी भाँति व्यर्थ हो जाते हैं। उन्हें दिये गये दानका जो कुछ फल होनेवाला होता है, उसे राक्षस और पिशाच प्रसन्नताके साथ लूट ले जाते हैं।

युधिष्ठिर ! अब जिन-जिन मनुष्योंका जीवन व्यर्थ है, उनका परिचय दे रहा हूँ, सुनो। जो लोग मेरी, भगवान् शंकरकी अथवा भूमण्डलके देवता ब्राह्मणोंकी शरण नहीं लेते, उनका जीवन व्यर्थ है। जिनकी कोरे तर्कशास्त्रमें ही आसक्ति है, जो नास्तिक-पथका अवलम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है तथा जो देवताओंकी निन्दा करते हैं, उनका जीवन भी व्यर्थ ही है। जो नराधम नास्तिकोंके शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञोंकी निन्दा करते हैं, वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। जो मूढ़ दुर्गा, स्वामी कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, माता-पिता, गुरु, इन्द्र तथा अन्द्रमाकी निन्दा करते और आचारका पालन नहीं करते, वे भी निरर्थक ही जीवन व्यतीत करते हैं, जो धन होनेपर भी दान और धर्म नहीं करता तथा दूसरोंको न देकर अकेले ही मिठाई उड़ायी करता है, उसका जीवन भी निरर्थक ही है। इस प्रकार व्यर्थ जीवनकी बात बतायी गयी।

अब दानका समय बतलाता हूँ। जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो मन और इन्द्रियोंको प्रसन्न रखकर श्रद्धाके साथ दान करता है, उसके फलको वह यौवनावस्थामें भोगता है। जो स्वयं देनेयोग्य वस्तु ले जाकर भक्तिपूर्वक सत्पात्रको दान करता है, उसको मरणपर्यन्त हर समय उस दानका फल प्राप्त होता है। दान और उसका फल सात्त्विक, राजस और तामस-भेदसे तीन-तीन प्रकारका होता है तथा उसकी गति भी तीन प्रकारकी होती है। इस विषयका वर्णन करता हूँ, सुनो—दान देना कर्तव्य है—ऐसा समझकर अपना उपकार न करनेवाले ब्राह्मणको जो दान दिया जाता है, वह सात्त्विक है। जिसका कुटुम्ब बहुत बड़ा हो तथा जो दरिद्र और बेवका विद्वान् हो, ऐसे ब्राह्मणको प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ दिया जाता है, वह भी सात्त्विक दानके ही अन्तर्गत है। परंतु जो बेवका एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके घरमें काफ़ी सम्पत्ति मौजूद है तथा जो पहले कभी अपना उपकार कर चुका है, ऐसे ब्राह्मणको दिया हुआ दान राजस माना गया है। अपने सम्बन्धी और प्रमादीको दिया हुआ, फलकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंके द्वारा दिया हुआ तथा अपात्रको दिया हुआ दान भी राजस ही है। जो ब्राह्मण बलिवैश्वदेव नहीं करता, बेवका ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है, उसको दिया हुआ दान तामस है। क्रोध, तिरस्कार, क्लेश और अवहेलनापूर्वक तथा सेवकको दिया हुआ दान भी तामस ही

असत्ताया गया है। सात्त्विक दानको देवता, पितर, मुनि और अग्नि ग्रहण करते हैं तथा उसके इन्हें बड़ा संतोष होता है। राजस दान दानक, बैल, ब्रह्म, यज्ञ और राजसौंके उपभोगमें जाता है तथा तामस दान धानी और मसिन कर्म करनेवाले प्रेत एवं पिशाचोंको प्राण होता है। अब त्रिविध पतिका वर्णन सुनो। सात्त्विक दानका फल उत्तम, राजस दानका मध्यम और तामस दानका फल अधम होता है। दानके उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राह्मणोंको जो दान दिया जाता है, वह अक्षय्य बतलाया गया है। अतः जो देवके विद्वान् होते हुए वरिष्ठ हों, उनके धरम-भोग्यका तुम स्वयं प्रदण्य करो और सम्प्रतिशाली द्विजोंकी रक्षा करते रहो। धनहीन वरिष्ठ ब्राह्मणोंको दान देकर उनकी भलीमार्ति पूजा करो। दाताका पाप दानके साथ ही दान सेनेवालेके पास चला जाता है और उसके पुण्य दाताको प्राप्त हो जाता है, अतः परसोद्धमें अपना हित चाहनेवाले पुण्यको सदा दान करते रहना चाहिये। जो वेद-विद्या पढ़कर अत्यन्त शुद्ध आचार-विचारसे रहते हैं और शूद्रोंका अन्न कमी नहीं ग्रहण करते हैं, ऐसे विद्वानोंको अत्यन्तपूर्वक बड़े-बड़े दानोंका प्राप्कार बनाना चाहिये।

पाण्डुनन्दन! जिनकी स्त्रियां अपने पतिके भोजनसे बचे हुए अन्नको हजारोंगुना साम समझकर उसके भित्तनेकी प्रतीक्षा किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणोंको तुम भोजनके लिये निर्मान्त्रित करना। वरिष्ठ कुलके ब्राह्मणोंको निर्मान्त्रित करके उन्हें निराश न सोढाना, अन्वया उनकी आशा मारी जायगी। जो मेरे भक्त हों, मेरी शरणमें हों, मेरा पूजन करते हों और नियमपूर्वक मुझमें ही सगे रहते हों, उनका यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिये। युधिष्ठिर! अपने जन भक्तोंको पवित्र करनेके लिये मैं प्रतिदिन दोनों समयकी संख्यामें ध्यात्त रहता हूँ। मेरा यह नियम कभी सङ्घट्ट नहीं होता, इसलिये मेरे निष्पाप भक्तजनोंको चाहिये कि ये आत्मगुणिके लिये संख्याके समय निरन्तर अष्टाक्षर मन्त्र (ॐ नमो मातायनाय) का जप करते रहें। संख्या और अष्टाक्षर मन्त्रका जप करनेसे दूसरे ब्राह्मणोंके भी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः चित्त-गुणिके लिये प्रत्येक ब्राह्मणको दोनों कालकी संख्या करना चाहिये। जो ब्राह्मण इस प्रकार संख्यापासन और जप करता हो, उसे देवकार्य और ध्याद्धमें नियुक्त करना चाहिये। उसको निन्दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्दा करनेपर ब्राह्मण उस ध्याद्धको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे आग ईंधनको जला जालती है। धर्मके जाननेवाले पुण्यको धर्ममें ब्राह्मणोंकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे यज्ञमानकी बड़ी निन्दा होती है। ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला मनुष्य कुलकी मोनिमें जन्म लेता है, उत्तरप दोषारोपण करनेसे

गरहा होता है और उसका तिरस्कार तथा उसके साथ द्वेष करनेसे वह कीड़ेकी मोनिमें जन्म पाता है। दुष्टिमान् पुण्यको चाहिये कि सात्त्विक, साँप और विद्वान् ब्राह्मण यदि कमजोर हों तो भी कभी उनका अपमान न करे; क्योंकि वे वे तीनों अपमानित होनेपर मनुष्यको भस्म कर जाने हैं। ब्राह्मण जन्मसे ही धर्मकी सनातन मूर्ति है। वह धर्मके ही लिये उत्पन्न हुआ है और मुक्तिपर उनका जन्मगिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण अपना ही शांता और अपना ही पहनना है। दूसरे मनुष्य ब्राह्मणकी बचाते ही भोजन पाने हैं, धनः ब्राह्मणोंका कमी अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सदा ही मुझमें अस्ति रहनेवाले होते हैं।

जो ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद्में वर्णित मेरे गुण और निष्कल स्वस्वका ज्ञान रखते हैं, उनका यत्नपूर्वक पूजन करना। धरपर रहो या विदेशमें, मेरे भक्त ब्राह्मणोंकी निरन्तर श्रद्धाके साथ पूजा करते रहना। ब्राह्मणके सामान कोई देवता, ब्राह्मणके समान गुरु, ब्राह्मणके बड़कर बन्धु और ब्राह्मणके बड़कर कोई निधि नहीं है। कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मणके श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मणको बड़कर पवित्र और पावन कोई नहीं है। ब्राह्मणके श्रेष्ठ धर्म और ब्राह्मणके उत्तम कोई गति नहीं है। पाप-कर्मके कारण मरणमें गिरते हुए मनुष्यका एक सुपात्र ब्राह्मणकी उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मणसे ही अग्निहोत्र करनेवाले, शांता, शूद्रका अन्न त्याग देनेवाले और मेरे भक्त हैं तथा सदा मेरी पूजा दिया करते हैं, उनको दिया हुआ दान अक्षय्य होता है। मेरे भक्त ब्राह्मणको दान देकर उसकी पूजा करने, शीघ्र मराने, सत्कार करने, बातचीत करने अथवा बर्षान करनेसे वह मनुष्यको दिव्यलोकमें पहुँचा देता है। जो सोच मेरे गुण और सोचार्थोंका पाठ तथा मेरा ममस्कार और ध्यान करते हैं, उनका दान और स्पर्श करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझमें ही सगे हुए हैं, जो मेरी महिमाका गान करते और मेरी शरणमें पड़े रहते हैं, जिनको उत्पत्ति शुद्ध रज और धीरसे हुई है, जो देवके विद्वान्, जितेन्द्रिय तथा शूद्रासे बचे रहनेवाले हैं, वे दानदानपत्र पवित्र कर देते हैं—ऐसे सोचनेके धरपर स्वयं उत्पन्न होकर मरिचुपूर्वक विरोधरूपसे दान देना चाहिये। वह साधारण दानकी अपेक्षा करोड़गुना फल देनेवाला माना गया है। जगत्त अथवा सोने समय, परदेशमें या घर रहने समय जिन ब्राह्मणक हृदयसे उसकी मन्त्रित-भावनाके कारण वे कभी दूर नहीं जाय, वह पूजन, बर्षान, स्पर्श अथवा सम्भाषण करनेवाले मनुष्यको पवित्र कर देता है। इस प्रकार सब अवस्थाओंमें मेरे भक्तोंकी रिये हुए सब प्रकारके दान स्वर्गमाग्य प्रदान करनेवाले हैं।

बीज और योनिकी शुद्धि तथा गायत्री-जप और ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! इस प्रकार सात्त्विक, राजस और तामस दान, उसकी भिन्न-भिन्न गति और पृथक्-पृथक् फलका वर्णन सुनकर धर्मपरायण युधिष्ठिरका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस परमपवित्र धर्मरूपी अमृतका पान करनेसे उन्हें तृप्ति नहीं हुई, अतः वे पुनः भगवान् श्रीकृष्णसे बोले—‘जगदीश्वर! मुझे बीज और योनि (वीर्य और रज) से शुद्ध पुरुषोंके लक्षण बताइये। बीज-दोषसे कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं? इसे बतानेके साथ ही ब्राह्मणोंके उत्तम, मध्यम आदि विशेष भेद और उनके गुण-दोषोंका भी विवेचन कीजिये। मैं आपका भक्त हूँ, इसलिये मेरी पूछी हुई सारी बातें बतलानेकी कृपा कीजिये।’

भगवान्ने कहा—राजन्! बीज और योनिकी शुद्धि-अशुद्धिका यथावत् वर्णन सुनो। उनकी शुद्धिसे ही यह संसार टिकता है और अशुद्धिसे उसका नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्यका विधिवत् पालन करता है, जिसका व्रत कभी खण्डित नहीं होता, उसको शुद्ध बीज समझना चाहिये, उसीका बीज शुभ होता है। इसी प्रकार जो कन्या पिता और माताकी वृष्टिसे उत्तम कुलमें उत्पन्न हो, जिसकी योनि दूषित न हुई हो तथा ब्राह्म आदि उत्तम विचारोंकी विधिसे ब्याही गयी हो, वह उत्तम मानी गयी है। उसीकी योनि श्रेष्ठ है। जो स्त्री मन, वाणी और क्रियासे परपुरुषके साथ समागम करती है, उसकी योनि गर्भाधानके योग्य नहीं होती। जो पापात्मा पुरुष संतानकी इच्छासे व्यभिचारिणी स्त्रीको स्वीकार करता है, वह अपनी दस पीढ़ी पहलेके पूर्वजों और दस पीढ़ी बादकी संतानोंको नरकमें डालता है। जो भूल्य मोहवशा दूषित योनिमें वीर्यकी स्थापना करता है, उसके वीर्यसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मण छहों अङ्गोंका विद्वान् ही क्यों न हो जाय, साधु पुरुषोंको उचित है कि उसका चाण्डालके समान बहिष्कार करें। जो स्त्री मन, वाणी और क्रियासे व्यभिचार करती है, उसको कुलघातिनी समझना चाहिये। उसके पेटसे पैदा हुआ बालक चाण्डालके समान होता है। दूषित योनिसे उत्पन्न हुए मनुष्य यज्ञ, दान, भोजन, वार्तालाप, शयन तथा सम्बन्ध आदिमें सम्मिलित करने योग्य नहीं होते। बिना ब्याही कन्यासे उत्पन्न, ब्याहके समय गर्भवती कन्यासे उत्पन्न, पतिकी जीवितावस्थामें व्यभिचारसे उत्पन्न, पतिके मर जानेपर परपुरुषसे उत्पन्न, संन्यासीके वीर्यसे उत्पन्न तथा पतित मनुष्यसे उत्पन्न—ये छः प्रकारके ब्राह्मण चाण्डाल होते हैं। इनको चाण्डालोंसे भी नीच समझना चाहिये। जो जहाँ-

तहाँ जिस किसी स्त्रीसे अथवा शूद्र जातिकी स्त्रीसे भी समागम कर लेता है, वह पापात्मा स्वेच्छाचारी कहलाता है। उसका बीज अशुभ होता है। उसका अशुद्ध वीर्य किसी शुद्ध योनि-वाली स्त्रीके योग्य नहीं होता। उसके सम्पर्कसे कुत्तेके चाटे हुए हविष्यकी तरह शुद्ध योनि भी दूषित हो जाती है। ब्राह्मणका वीर्य जब शूद्रा स्त्रीकी योनिमें पड़ता है तो हाहाकार कर उठता है और दुःखी होकर कहता है—‘हाय! मैं विष्ठाके गड्ढेमें पड़ गया। मुझे इस प्रकार अधोगतिमें डालनेवाला यह काम-मोहित पापात्मा स्वयं भी शीघ्र ही अधोगतिकी प्राप्त हो। इस तरह शाप देकर वह वीर्य गिरता है। वीर्यको आत्मा बताया गया है। वह सबसे श्रेष्ठ देवता है, इसलिये सब प्रकारका प्रयत्न करके अपने वीर्यकी रक्षा करनी चाहिये। मनुष्य ब्रह्मचर्यके पालनसे आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान् यश, पुण्य और मेरे प्रेमको प्राप्त करता है। जो गृहस्थ-आश्रममें स्थित होकर अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पञ्चयज्ञोंके अनुष्ठानमें तत्पर रहते हैं, वे पृथ्वीतलपर धर्मकी स्थापना करते हैं। जो प्रतिदिन सबेरे और शामको विधिवत् संध्योपासना करते हैं, वे वेदमयी नौकाका सहारा लेकर इस संसार-समुद्रसे स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरोंको भी तार देते हैं। जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनानेवाली वेदमाता गायत्रीका जप करता है, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका दान लेनेपर भी प्रतिग्रहके दोषसे दुखी नहीं होता तथा सूर्य आदि ग्रहोंमेंसे जो उसके लिये अशुभ स्थानमें रहकर अनिष्टकारक होते हैं, वे भी गायत्री-जपके प्रभावसे शान्त, शुभ और कल्याणकारी हो जाते हैं। जहाँ कहीं क्रूर कर्म करनेवाले भयंकर पिशाच रहते हैं वहाँ जानेपर भी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट नहीं कर सकते। वैदिक व्रतोंका आचरण करनेवाले पुरुष पृथ्वीपर दूसरोंको पवित्र करनेवाले होते हैं। प्रजापति मनुका कहना है कि ‘शील, स्वाध्याय, दान, शौच, कोमलता और सरलता—ये सद्गुण ब्राह्मणके लिये वेदसे भी बढ़कर हैं।’ जो ब्राह्मण ‘भूमिवः स्वः’ इन व्याहृतियोंके साथ गायत्रीका जप करता, वेदके स्वाध्यायमें संलग्न रहता और अपनी ही स्त्रीसे प्रेम करता है, वही जितेन्द्रिय, वही विद्वान् और वही इस भूमण्डलका देवता है।

जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं, वे निःसंदेह ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं। केवल गायत्रीमात्र जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि नियमसे रहता हो तो वह श्रेष्ठ है; किंतु जो चारों वेदोंका विद्वान् होनेपर भी सबका अन्न

खाता, सब कुछ बेचता और नियमोंका पालन नहीं करता, वह उत्तम नहीं माना जाता। पूर्वकालमें देवता और ऋषियों-ने ब्रह्माजीके सामने गायत्रीमन्त्र और चारों वेदोंको तराजूपर रखकर तोला था। उस समय गायत्रीका पलड़ा ही चारों वेदोंसे भारी साबित हुआ। जैसे धरमर खिले हुए फूलोंसे उनके सारभूत मधुको ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण वेदोंसे उनकी सारभूत गायत्रीका ग्रहण किया गया है। इसलिये गायत्री सम्पूर्ण वेदोंका प्राण कहलाती है। गायत्रीके बिना सभी वेद निर्जीव हैं। नियम और सदाचारसे छष्ट ब्राह्मण चारों वेदोंका विद्वान् हो तो भी वह निन्दाका ही पात्र है; किन्तु शील और सदाचारसे युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत्रीका जप करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन एक हजार गायत्री-मन्त्रका जप करना उत्तम है, सौ मन्त्रका जप करना मध्यम और दस मन्त्रका जप करना कनिष्ठ माना गया है। कुन्तीनन्दन। गायत्री सब पापोंको नष्ट करनेवाली है, इसलिये तुम सदा उसका जप करते रहो।

युधिष्ठिरने पूछा—त्रितोकीनाथ! आप सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं। बताइये, किस कर्मसे आप संतुष्ट होते हैं?

भगवान्ने कहा—भारत! कोई एक हजार भार गुग्गुल आदि सुगन्धित पदार्थोंको जलाकर मुझे धूप दे, निरन्तर नमस्कार करे, खूब मंत्र-पूजा चढ़ावे तथा ऋषिदेव, यज्ञवेद और सामवेदकी स्तुतिपासे सदा मेरा स्तवन करता रहे; किन्तु यदि वह ब्राह्मणको संतुष्ट न कर सके तो मैं उसपर प्रसन्न नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणकी पूजासे सदा मेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राह्मणको कष्टवचन सुनानेसे मैं ही उस कष्टवचनका लक्ष्य बनता हूँ। जो ब्राह्मणकी पूजा करते हैं, उनकी परम गति मुझमें ही होती है; क्योंकि पृथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमें मैं ही निवास करता हूँ। जो युधिष्ठिमान् मुझमें मन लगाकर ब्राह्मणोंको पूजा करता है, उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ। ब्राह्मण यदि बुद्धि, काने, बौने, वरिद्र और रोगी भी हों तो विद्वान् पुत्रियोंको कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। समुद्रपयन्त पृथ्वीके ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वे सब मेरे स्वरूप हैं। उनके पूजन करने-

से मेरा भी पूजन हो जाता है। बहुत-से अज्ञानो पुत्र्य इस बातको नहीं जानते कि मैं इस पृथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमें निवास करता हूँ। जो ब्राह्मणोंका अपमान करते, उन्हें स्वयमसे छष्ट कर देते, दूत बनाकर भेजते और उनको अपनी सेवा कराते हैं, उन पापियोंको धमराजके महाबली दून इच्छानुसार काटते हैं। जो ब्राह्मणोंको गाली देकर और उनकी निन्दा करनेके प्रसन्न होते हैं, वे जब यमलोकमें जाते हैं तो साल-साल आँसोंवाले क्रूर धमराज उन्हें पृथ्वीपर पटककर छातीपर सवार हो जाते हैं और आगमें तपाये हुए सेंगोंसे उनकी ओम उलाड़ते हैं। जो पापी ब्राह्मणोंकी ओर पापपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति नहीं करते, वैदिक मर्यादाका उल्लङ्घन करते और सारा ब्राह्मणोंके द्वेषी बने रहते हैं, वे जब यमलोकमें पहुँचते हैं तो वहाँ धमराजकी आज्ञासे टेढ़ी चौंचवासे बड़े-बड़े धमवान् पत्नी भाकर दास-धर्ममें उन पापियोंकी आँसे निकाल लेते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणको पीटता, उसके शरीरसे दून निकाल देता, उसकी हड्डी तोड़ डालता अथवा उसके प्राण से संता है, वह धमराज इक्षीत नरकोंमें अपने पापका फल भोगता है। पहले वह शलपर चढ़ाया जाता है। फिर मस्तक नीचे करके उसे आगमें सटका दिया जाता है और वह हजारों वर्षोंतक उसमें पकता रहता है। वह दुष्टबुद्धिवाला पुत्र्य उस पापका भोग से सबतक छुटकारा नहीं पाता, जबतक कि उसके पापका भोग समाप्त नहीं हो जाता। इसलिये ब्राह्मणोंके प्रति कभी अमङ्गलसूचक वचन न बोलो, उनसे बचो और बटोर बात न बोलो तथा कभी उनकी आत्माका उल्लङ्घन न करो। जो ब्राह्मणोंको फटकारते और गालियाँ गुनते हैं, वे मुझमें ही गाली देते और मुझमें ही बर्त बतते हैं। जो धन्दन, धूप और दीप आदिके द्वारा मेरी वाच्यमयी प्रतिमाका पूजन करता है, उसके द्वारा मेरी मूर्तमूर्ति पूजा नहीं होनी; किन्तु ब्राह्मणके पूजनसे मेरी धयावत् पूजा हो जाती है। ब्राह्मणोंकी इयाते ही मैं इस पृथ्वीको धारण करता हूँ। ब्राह्मणोंके अनुग्रहसे ही भगुत्तोर विजय पाता हूँ। ब्राह्मणोंके प्रसादसे ही मुझमें दार्शनिक्य आदि गुण मौजूब हैं तथा ब्राह्मणोंकी इयाते ही मुझे कोई परातत नहीं कर पाता।

यमलोकके मार्गका कष्ट और उससे बचनेके उपाय

युधिष्ठिरने पूछा—केसव! आप सर्वज्ञ हैं, इसलिये बताइये, मनुष्यलोक और यमलोकके बीचकी दूरी कितनी है? यमलोक कैसा है? कितना बड़ा है? और वहाँ है? मनुष्य किस उपायसे यमलोकके दुर्गसे छुटकारा पाते हैं?

जब जीव पाञ्चभौतिक शरीरसे अलग होकर स्वभा, हृद्दी और मात्से रहित हो जाता है, उस समय उसे गुण-नुगण्ड अनुभव किस प्रकार होता है? देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाले धर्मपरायण मनुष्य स्वर्गकी यात्रा कि

करते हैं? तथा पापी पुरुष प्रेतलोकमें कैसे जाते हैं? यम-लोकमें जाते समय जीवका रूप-रंग कैसा होता है? और उसका शरीर कितना बड़ा होता है? ये सब बातें बताइये।

भगवान्‌ने कहा—राजन्! तुम मेरे भयत हो, इसलिये जो कुछ पूछते हो वह सब बात यथार्थ रूपसे बता रहा हूँ। मनुष्यलोक और यमलोकमें छियासी हजार योजन का अन्तर है। इस बीचके मार्गमें न वृक्षकी छाया है, न तालाव है, न पोखरा है, न बावड़ी है और न कुआँ ही है। कोई मण्डप, बँठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गाँव, आश्रम, बगीचा, वन अथवा ठहरनेका दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। जब जीवका मृत्युकाल उपस्थित होता है और वह वेदनासे छटपटाने लगता है, उस समय कारण-तत्त्व शरीरका त्याग कर देते हैं, प्राण कण्ठक आ जाते हैं और वायुके वशमें पड़े हुए जीवको वरबस इस शरीरसे निकल जाना पड़ता है। छः कोषोंवाले शरीरसे निकलकर वायुरूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है। उस शरीरके रूप, रंग और माप भी पहले शरीरके ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होनेपर भी जीवको कोई देख नहीं पाता। देहधारियोंका अन्तरात्मा जीव आठ अङ्गोंसे युक्त होकर यमलोककी यात्रा करता है। वह काटने, टुकड़े-टुकड़े करने, जलाने अथवा मारनेसे नष्ट नहीं होता। यमराजकी आज्ञासे नाना प्रकारके भयंकर रूप धारण कर अत्यन्त क्रोधी और दुर्घर्ष यमदूत प्रचण्ड हथियार लिये आते हैं और जीवको जबर्दस्ती पकड़कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री-पुत्रादिके स्नेह-बन्धनमें आवद्ध होकर विवश-त्ता हो जाता है। जब वह जाने लगता है तो उसके किये हुए पाप-पुण्य उसके पीछे-पीछे जाते हैं और उसके बन्धु-बान्धव दुःखसे पीड़ित होकर कर्षणाजनक स्वरमें विलाप करने लगते हैं। उस समय जीव सबकी ओरसे निरपेक्ष हो समस्त बन्धु-बान्धवोंको छोड़कर चल देता है। माता-पिता, भाई-भामा, स्त्री-पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है, उनके नेत्र और मुख आंसुओंसे भीगे होते हैं, उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है, फिर भी वह जीव उन्हें विलापी नहीं पड़ता। वह अपना शरीर छोड़कर वायुरूपमें उस मार्गकी ओर चल देता है, जो अन्धकारसे भरा होता है और जिसका कहीं पार नहीं दिखायी देता। वह पथ बड़ा भयंकर होता है। उसपर चलनेवाले पापियोंको अन्ततक दुःख-ही-दुःख उठाना पड़ता है। पापाचारियोंके लिये वह चड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। वहाँ किसी सहायकका भित्तना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है, उस मनुष्यको बन्धु-बान्धव, भोग-सामग्री और धन-वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्गपर जाना पड़ता है।

स्थावर और जङ्गम सभी प्राणी एक दिन यमलोकके पक्षिक होते हैं। यमराजके अधीन रहनेवाले बेबता, अचुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं, वे स्त्री-पुरुष अथवा नपुंसक हों, बाल, बूढ़, सखण या जवान हों, तुरन्तके पैदा हुए हों अथवा गर्भमें स्थित हों, उन सबको एक दिन उस महान् पक्षीका धावा करनी ही पड़ती है। पूर्वाहण हो या पराहण, संघ्याका सख हो या रात्रिका, आधी रात हो या सबेरा, वहाँकी यात्रा सब खूनी ही रहती है। कोई परदेशमें हों, अंगल में हों, या पर्वतपर रहते हों, जल, थल, आकाश या घरके भीतर मौजूब हों, खाते या पानी पीते हों, वंठे हों, खड़े हों या बिछौनेपर पड़े हों, जागते हों अथवा सो गये हों, हर जगह और हर अवस्थामें उस महामार्गकी ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोकके पथपर कहीं डरकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदनासे आर्त होकर रोते-खिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतोंकी डाँट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और भयसे विह्वल हो थर-थर काँपने लगते हैं। दूतोंकी मार खाकर शरीरमें बेतरह पीड़ा होती है तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्योंने दान नहीं किया है उन्हें काँटे बिछाये हुए और तपी हुई बाल तथा धूलसे भरे हुए मार्गपर जलते पाँवसे चलना पड़ता है। धर्महीन पुरुषोंको काठ, पत्थर, शिला, डंडे, जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुशकी मार खाते हुए यमपुरीको जाना पड़ता है। दूसरे जीवोंकी हत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने, कराहने तथा जोर-जोरसे चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थितिमें उन्हें गिरते-पड़ते चलना पड़ता है। उनमेंसे किसीके हाथ-पैर और जंघे तोड़ दिये जाते हैं, किसीका गला मरोड़ दिया जाता है और किसीके कान, नाक और ओठ काट लिये जाते हैं। उनके ऊपर शक्ति, भिन्दिपाल, शङ्ख, तोमर, बाण और त्रिशूलकी मार पड़ती रहती है। कुत्ते, बाघ, भेड़िये और कौबे उन्हें चारों ओरसे नोचते रहते हैं। मांस काटनेवाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें उस मार्गमें भंसे, मृग, सूअर और चित्तकबरे हरिण चोट पहुँचाते और उनके मांस काटकर खाया करते हैं। जो पापी बालकोंकी हत्या करते हैं, उन्हें सुईके समान तीक्ष्ण डंकवाली भस्त्रियाँ चारों ओरसे काटती रहती हैं। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्रीकी हत्या करते हैं, उन्हें यमपुरीके मार्गपर यमदूत हथियारोंसे छेवते रहते हैं। जो दूसरे जीवोंको मक्षण करते या उन्हें दुःख पहुँचाते हैं, उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरोंके कपड़े, पलंग और बिछौने चुराते हैं, उन्हें यमदूत पिशाचोंकी तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं।

जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूतरोको गो, अनाज, सोना, खेत और गृह आदिको हड़प लेते हैं, वे यम-लोकमें जाते समय यमदूतके हाथसे पत्थर, जलती हुई सड़की, डंडे, काठ और काँटेदार शस्त्रोंको मार खाते हैं। तथा उनके समस्त अङ्गोंमें घाब हो जाता है। जो मनुष्य नरकका भय न मानकर ब्राह्मणोंका धन छीन लेते, उन्हें गालियाँ सुनाते और सदा मार बँठते हैं, वे जब यमपुरके मार्गमें जाते हैं उस समय यमदूत इस तरह जकड़कर बंधते हैं कि उनका हाता सुन्न जाता है; उनकी शीम, आँस और नाक काठ ली जाती है; उनके शरीरपर दुर्गन्धित पोष और रक्त डाला जाता है; गीदड़ उनके मांस मोच-मोचकर खाते हैं और क्रोधमें भरे हुए भयानक घण्टाल उन्हीं घाटों औरसे पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। यम-लोकमें पहुँचनेपर भी उन पापियोंको जीते-जी बिष्ठाके कूपमें डाल दिया जाता है और वहाँ वे करोड़ों वर्षोंतक पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तबनन्तर, समयानुसार नरक-पातनासे छुटकारा पानेपर वे इस लोकमें लौट कर जन्मोत्तक बिष्ठाके कौड़े होते हैं। जिन लोगोंने लोभ, दम्भ और असत्यके बारीमूत होकर धन रहते हुए भी धोषिय ब्राह्मणोंको दान नहीं दिया है, उनके गलेमें फंदा डालकर राक्षस उन्हीं पीटते हैं और वे भूख-प्यास तथा परिधमसे पीड़ित होकर यमपुरीको यात्रा करते हैं। दान न करनेवाले जीवोंके कष्ट, मूंह और तानु भूख-प्यासके मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमदूतोंसे धारंवार अप्र और जल माँग करते हैं। वे कहते हैं—'माँसिक! हम भूख और प्याससे बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता; कृपा करके मुट्ठीभर अप्र और थोड़ा-सा पानी दे दीजिये। इस प्रकार माचना करते ही रह जाते हैं, किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हीं उसी अवस्थामें धमराजके घर पहुँचा देते हैं।

यैशम्पयानजी कहते हैं—जनमेजय! स्रगवान् श्रीकृष्णके मुखसे भयंकर यम-व्यातनाका वर्णन सुनकर महाराज सुधिच्छिन्न भयसे घबरा उठे और बेहोश होकर पुष्यीवर गिर पड़े। मूच्छन्ति जनपर पूरा अधिकार जमा लिया। तत्पश्चात् जब वे धीरे-धीरे होशमें आये तो भागवान्ने उन्हें आश्वासन दिया—इसके बाद वे जलसे अपने गैत्र धोकर पुनः भगवान्ने बोले—'दियेवर! यमलोकके मार्गका विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो गया है। अब यह बतानेकी कृपा कीजिये कि मनुष्य किस उपायसे उस विषय मार्गको सुखपूर्वक तय कर सकते हैं ?'

भगवान्ने कहा—'पापमुनन्दन! इस संसारमें जो लोग धार्मिक जीवन ध्यतीत करते हैं, जीवहितसे असंग रहकर मनुष्योंके मेघमें सगे रहते हैं, देवता तथा ब्राह्मणोंकी

पूजा करते हैं और ब्राह्मणोंको नाना प्रकारकी सम्पत्ति दान देते हैं, वे यमलोकमें सुखपूर्वक जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणोंको, उनमें भी विशेषतः धोषियोंको अत्यन्त प्रसन्नताके साथ भरपूर प्रकारसे बनाये हुए उत्तम अन्नका भोजन करते हैं, वे महात्मा पुरुष विभिन्न विमानोंपर बँटकर यमलोकको यात्रा करते हैं। जो प्रतिदिन निष्पदमायसे सत्यभाषण करते हैं तथा जो ब्राह्मणोंको और उनमें भी विशेषतः धोषियोंको कनिष्ठा यादि गौर्माका पवित्र दान देने रहते हैं, वे निम्न कान्तिधाने बँध जुते हुए विमानोंमें बँटकर यमलोकको जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको छाता, जूता, शय्या, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे सोनेके छत्र सहाये उत्तम गहनोंसे सज-धजकर घोड़े, बँध अथवा हाथीके सवारोंसे धर्मराजके नगर नगरमें प्रवेश करते हैं। जो स्वान् आरतिसे शुद्ध होकर ब्राह्मणोंको प्रयत्नपूर्वक शुद्ध द्रव्य, दही, घी, गुड़ और शर्करा ध्याते मास दान करते हैं, वे चक्रवाकोसे जुते हुए सुवर्णमय विमानोंपर बँटकर यमलोकको यात्रा करते हैं। उस समय गण्यवंगण उनके साथ रहकर भाँति-भाँति बाजे बजाते हुए उनका मनोरञ्जन करते हैं। जो सुगन्धित फूल और फलका दान करते हैं, वे हंसयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको घीमें तैयार किये हुए भाँति-भाँतिके पकवान दान करते हैं, वे यादोंके समान वेगवाने सारके विमानोंपर बँटकर यमपुरकी यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियोंको जीवन देनेवाले जलका दान करते हैं, वे अत्यन्त शून्य होकर हंस जुते हुए विमानोंद्वारा सुखपूर्वक धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो लोग शान्तमायसे युक्त होकर धोषिय ब्राह्मणोंको तिल अथवा तिलकी गी मा पूजनेकी गीरा दान करते हैं, वे सुवर्णमयसे समान तेजस्वी विमानोंद्वारा गण्यवंगोंके पोतु मुनते हुए यमराजके नगरमें जाते हैं। जिन्होंने इस लोकमें बाघकी, कुएँ, तालाब, पोखरे, पोषारियाँ और जलो में भरे हुए जलाराय बनाये हैं, वे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल और विषय घष्ठानाको निनादित विमानोंपर बँटकर यमलोकमें जाते हैं; उस समय वे महात्मा नियन्त्रण और महान् कान्तिमान् दिखायी देते हैं तथा विषयलोकके पुरुष उन्हीं ताड़के संतों और चँबर हुआया करते हैं। जिन्होंने यहाँ अत्यन्त विभिन्न, विस्तृत, मनोहर, सुन्दर और इतनीय देवमन्दिर बनाये हैं, वे सारे बादसोंके समान कान्तिमान् एवं हवायें, गमान वेगवाने विमानोंद्वारा यमलोकको यात्रा करते हैं और यहाँ जानेपर वे धमराजकी मुनी एवं प्रताप देवते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोकके निवासी होते हैं। जो लोग देवताओंके उद्देश्यसे प्याज बनवाकर यहाँ गन्ने द्वारा प्यासे मनुष्योंके ठंडे जन चिताया करते हैं।

करते हैं? तथा पापी पुण्य प्रेतलोकमें कैसे जाते हैं? यम-लोकमें जाते समय जीवका रूप-रंग कैसा होता है? और उसका शरीर कितना बड़ा होता है? ये सब बातें बताइये।

भगवान् ने कहा—राजन् ! तुम मेरे भक्त हो, इसलिये जो कुछ पूछते हो वह सब बात यथार्थ रूपसे बता रहा हूँ। मनुष्यलोक और यमलोकमें छियासी हजार योजन का अन्तर है। इस बीचके मार्गमें न वृक्षकी छाया है, न तालाब है, न पौखरा है, न झाड़ो है और न कुँआ ही है। कोई मण्डप, बँठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गाँव, आश्रम, बगीचा, वन अथवा ठहरनेका दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। जब जीवका मृत्युकाल उपस्थित होता है और वह वेदनासे छटपटाने लगता है, उस समय कारण-तत्त्व शरीरका त्याग कर देते हैं, प्राण कण्ठक आ जाते हैं और वायुके वशमें पड़े हुए जीवको बरबस इस शरीरसे निकल जाना पड़ता है। छः कोषोंवाले शरीरसे निकलकर वायुरूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है। उस शरीरके रूप, रंग और माप भी पहले शरीरके ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होनेपर भी जीवको कोई देख नहीं पाता। देहधारियोंका अन्तरात्मा जीव आठ अङ्गोंसे युक्त होकर यमलोककी यात्रा करता है। वह काटने, टुकड़े-टुकड़े करने, जलाने अथवा मारनेसे नष्ट नहीं होता। यमराजकी आज्ञासे नाना प्रकारके भयंकर रूप धारण कर अत्यन्त क्रोधी और दुर्धर्म यमदूत प्रचण्ड हथियार लिये आते हैं और जीवको जबर्दस्ती पकड़कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री-पुत्रादिके स्नेह-बन्धनमें आवद्ध होकर विवश-सा हो जाता है। जब वह जाने लगता है तो उसके किये हुए पाप-पुण्य उसके पीछे-पीछे जाते हैं और उसके बन्धु-बान्धव दुःखसे पीड़ित होकर करुणाजनक स्वरमें विलाप करने लगते हैं। उस समय जीव सबकी ओरसे निरपेक्ष हो समस्त बन्धु-बान्धवोंको छोड़कर चल देता है। माता-पिता, भाई-मामा, स्त्री-पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है, उनके नेत्र और मुख आँसुओंसे भोगे होते हैं, उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है, फिर भी वह जीव उन्हें दिखायी नहीं पड़ता। वह अपना शरीर छोड़कर वायुरूपमें उस मार्गकी ओर चल देता है, जो अन्धकारसे भरा होता है और जिसका कहीं पार नहीं दिखायी देता। वह पय बड़ा भयंकर होता है। उसपर चलनेवाले पापियोंको अन्ततक दुःख-ही-दुःख उठाना पड़ता है। पापाचारियोंके लिये वह बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। वहाँ किसी सहायकका मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है, उस मनुष्यको बन्धु-बान्धव, भोग-सामग्री और धन-वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्गपर जाना पड़ता है।

स्वाबर और जङ्गम सभी प्राणी एक दिन यमलोकके पक्षिक होते हैं। यमराजके अधीन रहनेवाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं, वे स्त्री-पुंसव अथवा मनुष्य हों, बाल, बृद्ध, तरुण या जवान हों, तुरंतके पैदा हुए हों अथवा गर्भमें स्थित हों, उन सबको एक दिन उस महान् पक्षकी यात्रा करनी ही पड़ती है। पूर्वाह्न हो या पराह्न, संध्याका समय हो या रात्रिका, आधी रात हो या सबेरा, वहाँकी यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई परदेशमें हों, जंगल में हों, या पर्वतपर रहते हों, जल, थल, आकाश या घरके भीतर मौजूब हों, खाते या पानी पीते हों, बैठे हों, खड़े हों या बिछौनेपर पड़े हों, जागते हों अथवा सो गये हों, हर जगह और हर अवस्थामें उस महामार्गकी ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोकके पथपर कहीं डरकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदनासे आतं होकर रोते-बिल्साते हुए चलना पड़ता है। यमदूतोंकी डाँट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और भयसे विह्वल हो थर-थर कांपने लगते हैं। दूतोंकी मार खाकर शरीरमें बेतरह पीड़ा होती है तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्योंने दान नहीं किया है उन्हें काँटे बिछाये हुए और तपी हुई बाल तथा धूलसे भरे हुए मार्गपर जलते पाँवसे चलना पड़ता है। धर्महीन पुरुषोंको काठ, पत्थर, शिला, डंडे, जलती लकड़ी, चावुक और अंकुशकी मार खाते हुए यमपुरीको जाना पड़ता है। दूसरे जीवोंकी हत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने, कराहने तथा जोर-जोरसे चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थितिमें उन्हें गिरते-पड़ते चलना पड़ता है। उनमेंसे किसीके हाथ-पैर और जंघे तोड़ दिये जाते हैं, किसीका गला मरोड़ दिया जाता है और किसीके कान, नाक और ओठ काट लिये जाते हैं। उनके ऊपर शक्ति, मिन्दिपाल, शङ्ख, तोमर, बाण और त्रिशूलकी मार पड़ती रहती है। कुत्ते, बाघ, भेड़िये और कौवे उन्हें चारों ओरसे नोचते रहते हैं। मांस काटनेवाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें उस मार्गमें भँसे, मृग, सूअर और चितकबरे हरिण चोट पहुँचाते और उनके मांस काटकर खाया करते हैं। जो पापी बालकोंकी हत्या करते हैं, उन्हें सुईके समान तीक्ष्ण डंकवाली मस्खियाँ चारों ओरसे काटती रहती हैं। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्रीकी हत्या करते हैं, उन्हें यमपुरके मार्गपर यमदूत हथियारोंसे छेदते रहते हैं। जो दूसरे जीवोंको मक्षण करते या उन्हें दुःख पहुँचाते हैं, उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरोंके कपड़े, पलंग और बिछौने चुराते हैं, उन्हें यमदूत पिशाचोंकी तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं।

जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरोंकी गो, अनाज, सोना, खेत और गृह आदिको हड़प लेते हैं, वे यम-लोकमें जाते समय यमदूतोंके हाथसे पत्थर, जलती हुई सड़की, डंढरे, काठ और काँटेदार शस्त्रोंकी मार खाते हैं। तथा उनके समस्त अङ्गमें घाव हो जाता है। जो मनुष्य नरकका भय न मानकर ब्राह्मणोंका धन छीन लेते, उन्हें गालियाँ मुनाते और सवा मार बँडते हैं, वे जब यमपुरके मार्गमें जाते हैं उस समय यमदूत इस तरह जकड़कर बाँधते हैं कि उनका मूत्र मूला जाता है; उनकी जीभ, आँख और नाक काट ली जाती है; उनके शरीरपर दुर्गन्धित पीब और रक्त डाला जाता है; गोदड़ उनके मांस नोच-नोचकर खाते हैं और क्रोधमें भरे हुए भयानक चाण्डाल उन्हें घाँटें ओरसे पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। यम-लोकमें पहुँचनेपर भी उन पापियोंको जीते-जी विष्ठाके कूपमें डाल दिया जाता है और वहाँ वे करोड़ों वर्षोंका पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तदनन्तर, समयानुसार नरक-यातनासे छूटकारा पानेपर वे इस लोकमें ही करोड़ जन्मोंतक विष्ठाके कीड़े होते हैं। जिन लोगोंने लोभ, दम्भ और अस्तम्यके बारीभूत होकर धन रहते हुए भी धोखिय ब्राह्मणोंको दान नहीं दिया है, उनके शलमें फँदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते हैं और वे भूल-व्यास तथा परिधमसे पीड़ित होकर यमपुरीकी यात्रा करते हैं। दान न करनेवाले जीवोंके कष्ट, भूँह और तालु भूल-व्यासके मारे सूखे रहते हैं तथा वे प्रमदूतोंसे बारंबार अप्र और जल माँगा करते हैं। वे कहते हैं—'माँसिक! हम भूल और व्याससे बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब क्या नहीं जाता; छुपा करके मुट्ठीभर अप्र और धोड़ा-सा पानी दे दीजिये। इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं, किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें उसी अवस्थामें यमराजके घर पहुँचा देते हैं।

यशस्वाम्यनजी कहते हैं—जनमेजय! भगवान् धीहृष्य-के मुखसे भयंकर यम-यातनाका वर्णन सुनकर महाराज सुघिच्छिदर भयसे घरी उठे और बेहोश होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। मूच्छन्ति उनपर पूरा अधिकार जमा लिया। तत्परवान् जब वे धीरे-धीरे होशमें आये तो भगवान्ने उन्हें आरथासन दिया। इसके बाद वे जलसे अपने नेत्र धोकर पुनः भगवान्से बोले—'देवेश्वर! यमलोकके मार्गका विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो गया है। अब यह धरतीकी छुपा कीजिये कि मनुष्य किस उपायसे उस विकट मार्गको सुलपूर्वक तय कर सकते हैं?'

भगवान्ने कहा—पाण्डुनन्दन! इस संसारमें जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, जोर्षहाससे अप्रार रहकर गुणजनोंकी सेवामें सगे रहते हैं, देवता तथा ब्राह्मणोंकी

पूजा करते हैं और ब्राह्मणोंकी नाना प्रकारकी बन्धुने दान देते हैं, वे यमलोकमें सुलपूर्वक जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणोंको, उनमें भी विशेषतः धोखियोंकी अग्र्यन्त प्रगणनाके साथ अश्लील प्रकारसे बनाये हुए उत्तम अन्नका भोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानोंपर बँटकर यमलोककी यात्रा करते हैं। जो प्रतिदिन निष्कपटभावसे सत्यमायण करते हैं तथा जो ब्राह्मणोंको और उनमें भी विशेषतः धोखियोंकी बर्निता आदि गौत्रोंका पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मल कान्तिधारे बँट जाते हुए विमानोंमें बँटकर यमलोककी जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको छाता, झूता, शय्या, आसन, बस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे सोनेके छत्र लगाये उत्तम महानोंसे राज-धरार पीड़े, बँट अथवा हाथीकी सवारोंके धर्मराजके सुन्दर नगरमें प्रवेश करते हैं। जो स्वान आदिसे गृह होकर ब्राह्मणोंको अग्र्यन्त-पूर्वक शूद्र दूध, दही, घी, मुड़ और गृहदा धन्नाके साथ दान करते हैं, वे चक्रवाचोंके जुते हुए सुवर्णमय विमानोंपर बँटकर यमलोककी यात्रा करते हैं। उस समय पाण्डुनन्दन उनके साथ रहकर भक्ति-भाति धारण बनाते हुए उनका मनोरञ्जन करते हैं। जो सुगन्धित फूल और फलका दान करते हैं, वे हंसयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको घोषमें तैयार रिये हुए भक्ति-भक्तिके पकवान दान करते हैं, वे वायुके समान वेगवाने सारे विमानोंपर बँटकर यमपुरकी यात्रा करते हैं। जो समान प्राणियोंको जीवन देनेवाले जलका दान करते हैं, वे अप्रयत्न तृप्त होकर हंस जुते हुए विमानोंद्वारा सुलपूर्वक धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो लोग शान्तभावसे मुत्रा होकर धोखिय ब्राह्मणोंको तिल अथवा तिलकी गो या पत्नी गोला दान करते हैं, वे सुवर्णमयके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा कष्टोंके पीत मुक्त हुए यमराजके नगरमें जाते हैं। जिन्होंने इन लोकमें भावही, दुष्ट, तालाव, पोतरे, पोसर्षिया और जनोंके भरे हुए जलाराव बनवाये हैं, वे चन्द्रमाके समान उग्रमय और विष्य घन्नावासे निवासित विमानोंपर बँटकर यमलोकमें जाते हैं; उस समय वे महात्मा निष्कपट और महान् कान्ति-मान् विराट्पी देते हैं तथा दिव्यलोकके पुरुष उन्हें ताड़ने पने और चँवर डुलाया करते हैं। जिन्होंने घटी अग्र्यन्त विचित्र, विस्तृत, मनोहर, सुन्दर और दार्शनिक देवमन्दिर बनवाये हैं, वे सारे देवताओंके समान कान्तिमान् एवं ह्वाये, नमान वेगवाने विमानोंद्वारा यमलोककी यात्रा करते हैं और घटी जानेपर वे यमराजको सुखी एवं प्रमत्त देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवतारुके निवासि होते हैं। जो लोग देवताओंके उर्ध्वसे प्याऊ बनवाकर वहाँ गढ़ुरे द्वारा प्यासे मनुष्योंकी ठंडे जल पिताना करते हैं, वे उग महान्

मार्गपर अत्यन्त तृप्त होकर सुखके साथ यात्रा करते हैं। खड़ाऊँ और जल-दान करनेवाले मनुष्योंको उस मार्गमें सुख मिलता है, वे उत्तम रथपर बैठकर सोनेके पीढेपर पैर रखे हुए यात्रा करते हैं। जो लोग बड़े-बड़े वगीचे बनवाते और उसमें वृक्षोंके पीछे रोपते हैं तथा शान्तिपूर्वक जलसे सौंचकर उन्हें फल-फूलोंसे सुशोभित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिव्य वाहनोपर सवार हो आभूषणोंसे सज-धजकर वृक्षोंकी अत्यन्त रमणीय एवं शीतल छायामें होकर दिव्य पुरुषोंद्वारा सम्मान पाते हुए यमलोकमें जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको घोड़े, बैल अथवा हाथीकी सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हें सोना, चाँदी, मूंगा और मोती प्रदान करते हैं, वे सोनेके विमानोंपर बैठकर धर्मराजके नगरमें जाते हैं। भूमिदान करनेवाले लोग समस्त कामनाओंसे तृप्त होकर बैल जुते हुए सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंके द्वारा उस लोककी यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुगन्धित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं, वे सुगन्धपूर्ण सुन्दर वेष धारण कर उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो सुन्दर हार पहने हुए विचित्र विमानोंपर बैठकर धर्मराजके नगरमें जाते हैं। दीप-दान करनेवाले पुरुष सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंसे दसों दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए साक्षात् अग्निके समान कान्तिमान् स्वरूपसे यात्रा करते हैं। जो घर एवं आश्रय-स्थानका दान करनेवाले हैं, वे सोनेके चतूराँसे युक्त और प्रातःकालीन सूर्यके समान कान्तिवाले गृहोंके साथ धर्मराजके नगरमें प्रवेश करते हैं। जो ब्राह्मणोंको पेरोंमें लगानेके लिये उबटन, सिरपर मलनेके लिये तेल, पैर धोनेके लिये जल और पीनेके लिये शर्वत देते हैं, वे घोड़ेपर सवार होकर यमलोककी यात्रा करते हैं। जो रास्तेके थके-माँदे दुर्बल ब्राह्मणोंको ठहरनेकी जगह देकर उन्हें आराम पहुँचाते हैं, वे चक्रवाकसे जुते हुए विमानपर बैठकर यात्रा करते हैं। जो घरपर आये हुए ब्राह्मणोंको स्वागतपूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत् पूजा करते हैं, वे उस मार्गपर बड़े आनन्दके साथ जाते हैं। जो मनुष्य मेरा दर्शन करके 'नमो ब्रह्मण्यदेवाय' कहकर मुझे प्रणाम करते हैं और सदा व्रतधारी पुरुषके समान

अपने मन और इन्द्रियोंपर संयम रखते हैं, वे सुखके साथ धर्मराजके स्थानको जाते हैं। जो प्रतिदिन 'नमः सर्व-सहाम्यश्च' ऐसा कहकर गौको नमस्कार करता है, वह यमपुर-के मार्गपर सुखपूर्वक यात्रा करता है। नित्य प्रातःकाल विछोनेसे उठकर जो 'नमोऽस्तु विप्रदत्ताय' कहते हुए पृथ्वीपर पैर रखता है, वह सब कामनाओंसे तृप्त और सप्रकारके आभूषणोंसे विभूषित होकर दिव्य विमानके द्वारा सुखपूर्वक यमलोकको जाता है। जो देवता और अतिथियोंको भोजन करनेके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं (अथवा जो सबेरे और शामको भोजन करनेके सिवा बीचमें कुछ नहीं खाते) तथा दम्भ और असत्यसे बचे रहते हैं, वे भी सारस-युक्त विमानके द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो दिन-रात-में केवल एक दूर भोजन करते और दम्भ तथा असत्यसे दूर रहते हैं, वे हंसयुक्त विमानोंके द्वारा बड़े आरामके साथ यमलोकको जाते हैं। जो जितेन्द्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करते हैं अर्थात् एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शामको भोजन करते हैं, वे मयूरयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो मेरे भक्त होकर इन्द्रियोंको वशमें करके तीर्थोंमें भ्रमण करते हैं, वे महात्मा भी बड़े आनन्दके साथ विमानोंके द्वारा उस मार्गको तय करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावाले यज्ञोंका अनुष्ठान करते हैं, वे हंस और सारसोंसे युक्त विमानोंके द्वारा उस मार्गपर जाते हैं। जो दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिना ही अपने कुटुम्बका पालन करते हैं, वे सुवर्णय विमानोंके द्वारा यात्रा करते हैं। जो सम्पूर्ण-प्राणियोंपर समान दृष्टि रखते, जीवोंको अभय-दान देते, क्रोध और लोभसे रहित होते तथा इन्द्रियोंको अपने वशमें किये रहते हैं, वे महान् कान्तिमान् तथा देवता और गन्धर्वोंसे सेवित होकर पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमानों-द्वारा यमराजके लोकमें जाते हैं। जो प्रतिदिन भगवान्की पूजा, स्तुति और नमस्कार करते हैं, वे सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं। वहाँ धर्मराज स्वयं सुन्दर फूलोंकी मालाएँ पहनाकर उनकी पूजा करते हैं।

जल-दान, अन्न-दान और अतिथि-सत्कारका माहात्म्य

वेशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! यमपुरके मार्ग-का वर्णन तथा वहाँ जीवोंके (सुखपूर्वक) जानेका उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान् श्रीकृष्णसे फिर बोले—दिव्येश्वर! आप सम्पूर्ण देवियोंका वध करनेवाले हैं, ऋषियोंका समुदाय सदा आपकी

ही स्तुति करते हैं। आप षडंश्वर्यसे युक्त, भव-बन्धनसे मुक्ति देनेवाले, श्रीसम्पन्न और हजारों सूर्यके समान तेजस्वी हैं। आपहीसे सबकी उत्पत्ति हुई है। आप धर्मके ज्ञाता और सम्पूर्ण धर्मोंके प्रवर्तक हैं। शान्तस्वरूप अच्युत! मुझे सब प्रकारके दानोंका फल बतलाइये। दान किस प्रकार और

कैसे ब्राह्मणको देना चाहिये ? तथा किस तरहके तपका अनुष्ठान करके कहाँ उसका फल भोगा जाता है ?

श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! ध्यान देकर मुनो—सब प्रकारके दानोंका फल परम पवित्र, उत्तम और पार्योंका नाश करनेवाला है। यदि एक दिन भी गायकी प्यास बुझाने-भरका जल, जो स्वयं ही जमीन खुदवाकर पंदा किया गया हो, दान किया जाय तो उससे सात पीढ़ीतकके पूर्वजोंका उद्धार हो जाता है। संसारमें जलकी प्राणियोंका जीवन माना गया है, उसके दानसे जीवोंकी तृप्ति होती है। जलके गुण विष्य हैं और वे परलोकमें भी लाभ पहुँचानेवाले हैं। यमलोकमें पुण्योदकी नामवाली परम पवित्र नदी है। वह जलदान करनेवाले पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करती है। उसका जल ठंडा होता है और वह ठंडे जलका दान करने-वाले लोगोंको सदा सुख पहुँचाता है। प्यासे मनुष्यकी प्यास अत्रसे नहीं बुझती, इसलिये समभवत् मनुष्यको चाहिये कि वह प्यासेको सदा पानी पिलाया करे। सब प्राणी जलसे पंदा होते और जलसे ही जीवन धारण करते हैं, इसलिये जल दान सब दानोंसे बढ़कर माना गया है। सब प्रकारके वान, तप और यज्ञसे जो उत्तम फल प्राप्त होता है, वह सब केवल जलके दानसे मिल जाता है—इसमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है। जो लोग ब्राह्मणोंको सुपन्न अन्न दान करते हैं, वे मानो प्राण-दान करते हैं; तेज, बल, रूप, सत्व, धैर्य, धृति, दृष्टि, ज्ञान, भेदा और आयु—इन सबका आधार अन्न ही है। प्राण, अपान, ध्यान, उदान और सपान—ये पाँचो प्राण अत्रके ही आधारपर रहकर देहाधारियोंको धारण करते हैं। समस्त विद्यालय और पवित्र बनानेवाले सम्पूर्ण यज्ञ अत्रसे ही चलते हैं। इसलिये अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है। रुद्र आदि सम्पूर्ण देवता, पितर और अग्नि अत्रसे ही संतुष्ट होते हैं। प्रजापतिने प्रत्येक कल्पमें अत्रसे ही सारी प्रजाकी सृष्टि की है; इसलिये अत्रसे बढ़कर न कोई दान हुआ है और न होगा। धर्म, अर्थ और कामका निर्वाह अत्रसे ही होता है; अतः इस लोक या परलोकमें अत्रसे बढ़कर कोई दान नहीं है। यज्ञ, राजस, प्रह, नाग, भूत और वानव भी अत्रसे ही संतुष्ट होते हैं; इसलिये अन्नका महत्त्व सबसे बढ़कर है। दूसरेका अन्न खानेवाला मनुष्य जो भी राम कर्म करता है, उसका एक भाग तो करनेवालेको मिलता है और तीन भाग अन्नदाताका हो जाता है, इसलिये ब्राह्मणोंको विशेषरूपसे अन्न देना चाहिये। जो मनुष्य द्रव्य और असत्यका परित्याग करके भ्रूममें परम भक्ति रखकर रसोईमें भेद न करते हुए दरिद्र एवं क्षीविय ब्राह्मणको एक वर्षतक अन्न-दान करता है, वह एक लाख वर्षतक बड़े सम्मानके साथ

देवलोकमें निवास करता है तथा बर्षा इच्छानुसार रूप धारण करके यष्टे विचरता रहता है; फिर समयानुसार पुन्य क्षीण हो जानेपर जब वह स्वर्गसे नीचे उतरता है तो मनुष्यलोकमें ब्राह्मण होता है। जो छः महीने या वार्षिक ब्राह्मणव्रत प्रतिदिनको पढ़ती मित्रा दक्षि ब्राह्मणको देना है, उसे एक हजार गो-दानका पुण्यफल प्राप्त होता है। जो एक वर्षतक प्रतिदिनको अग्रभिक्षाको वस्त्रसे ढ़कर याचना न करने-वाले ब्राह्मणके यहाँ स्वयं पढ़ना आता है, वह हजारों वरिता गौत्रिके दानसे मिलनेवाले पुण्यफलको पारर इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। पाण्डुवनन। देवा-दानसे अन्नप्राप्त एवं रास्ता चलकर परे-भेदि प्राये हुए भूते और अन्न खातेवाले ब्राह्मणको अन्नदान करना चाहिये। जो धनकी आय होते हुए भी याचकको अन्न नहीं देता, वह सोमो मनुष्य कीइसे भरे हुए वातसूत्र नामक नरकमें गिरता है। सोम और मोहके कारण विक्रेको सो बैठनेवाला वह पापी पुरुष उस घोर नरकमें इस हजार वर्षोंतक धेवनासे कराहता हुआ क्लेश भोगता रहता है। फिर दीर्घकालके परधान उस नरकसे छूटकारा पानेपर वह मर्त्यलोकमें घाण्डालोक यहाँ जन्म लेता और अत्यन्त दरिद्र होता है।

जो दूरका रास्ता तप करनेके कारण दुर्बल तथा भूत-प्यास और परिधमसे दका-मोदा हो, जिसके पर बड़ी कठिनतासे आगे बढ़ते हैं तथा जो बहुत पीड़ित हो रहा हो, ऐसा ब्राह्मण अन्नदाताका पता पूछता हुआ धूलभरे पंरोसे यदि घरपर आकर अन्नकी याचना करे तो पालपुत्रके उसकी पूजा करने चाहिये; क्योंकि वह अतिथि स्वर्गका सोपान होता है। उसके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अतिथिकी पूजा करनेसे अनिन्देवकों जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी हविष्यसे होम करने और कूल तथा धारन चढ़ानेसे भी नहीं होती। श्रेष्ठ पुत्रकृतीयंसे विधिपूर्वक कर्पिता गोका दान करनेसे भी उस फलको प्राप्ति नहीं होती, जो ब्राह्मणको भोजन करानेसे मिलता है। ब्राह्मणके घरणोक्त्रके भागी हुई यह पृथ्वी जलतक कायम रहती है, तदवत् अन्नदाताके पितर कमलके पत्तेमें जल पीते हैं। देवताके ऊपर चढ़ो हुई पत्र-मुष्प आदि पूजन-सामग्रीको हटाकर उस स्थानको साफ करना, ब्राह्मणके जूडे किये हुए वस्त्र और स्थानको मोज-धो देना, यके हुए ब्राह्मणका पर दबाना, उसके घरण धोना, उसे रहनेके लिये घर, सोनेके लिये शय्या और बैठनेके लिये आसन देना—इनसेसे एक-एक कायंका महत्त्व गो-दानसे बढ़कर है। जो मनुष्य ब्राह्मणको पर धोनेके लिये जल, परमे लगानेके लिये धो, दीपक, अन्न और रहनेके लिये घर देते हैं, वे कभी यमलोकमें नहीं जाते। राजन् ! ब्राह्मणका

आतिथ्य-सत्कार तथा भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करनेसे तँतीसों देवताओंकी सेवा हो जाती है। पहलेका परिचित मनुष्य यदि घरपर आवे तो उसे अभ्यागत कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता है। द्विजोंको इन दोनोंकी ही पूजा करनी चाहिये। यह पञ्चम वेद—पुराणकी श्रुति है। जो अतिथिके चरणोंमें तेल मलता, उसे भोजन कराता और पानी पिलाता है, उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह मनुष्य तुरंत सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है और मेरी कृपासे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमान-पर आरुढ़ होकर मेरे परम धामको पधारता है। यका हुआ अभ्यागत जब घरपर आता है तो उसके पीछे-पीछे समस्त



देवता, पितर और अग्नि भी पदार्पण करते हैं। यदि उस अभ्यागत द्विजकी पूजा हुई तो उसके साथ उन देवता आदिकी भी पूजा हो जाती है और उसके निराश लौटनेपर वे देवता, पितर आदि भी हताश होकर लौट जाते हैं। जिसके घरसे अतिथिको निराश होकर लौटना पड़ता है, उसके पितर पंद्रह वर्षोंतक भोजन नहीं करते। वह लोभी मनुष्य देवताओं, पितरों और अग्नियोंसे परित्यक्त होकर पंद्रह वर्षोंतक रौरव नरकमें पड़ा रहता है और वहाँसे छूटनेपर संसारमें जन्म

लेकर उच्छिष्टभोगी होता है। जो बलिबैरबदेव कर्मके समय घरपर आवे हुए अतिथिकी पूजा नहीं करता, वह तुरंत चाण्डाल हो जाता है। जो देश-कालके अनुसार घरपर आवे हुए ब्राह्मणको वहाँसे बाहर कर देता है, वह तत्काल पतित हो जाता है और मरनेके बाद एक करोड़ वर्षोंतक घोर रौरव नरकमें पकाया जाता है, फिर समयानुसार जब उससे छुटकारा पाता है तो इस संसारमें बारह जन्मोंतक भूख-प्यास-का कष्ट भोगनेवाला कुत्ता होता है। यदि देस-कालके अनुसार अन्नकी इच्छासे चाण्डाल भी अतिथिके रूप में आ जाय तो गृहस्थ पुरुषको सब उसका सत्कार करना चाहिये। जो लोभ और मोहवश विचाररून्य होकर उसका सत्कार किये बिना ही भोजन कर लेता है, वह दस जन्मोंतक चाण्डाल होता है। जो अतिथिको निराश लौटाकर स्वयं भोजन करते समय अत्यन्त हर्षका अनुभव करता है, उसे इस बातका पता नहीं रहता कि मैं विष्ठाके कुएँमें पड़नेवाला हूँ। जो अतिथिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी बस्त्र ओढ़ना, अपने लिये रसोई बनवाना और भोजन करना—सब कुछ व्यर्थ है। जो प्रतिदिन साङ्गोंपाङ्ग वेदोंका स्वाध्याय करता है किन्तु अतिथिकी पूजा नहीं करता, उस द्विजका जीवन व्यर्थ है। जो लोग पाक-यज्ञ, पञ्चमहायज्ञ तथा सोमयाग आदिके द्वारा यजन करते हैं परंतु घरपर आवे हुए अतिथिका सत्कार नहीं करते, वे यशकी इच्छासे जो कुछ दान या यज्ञ करते हैं वह सब व्यर्थ हो जाता है। अतिथिकी मारी गयी आशा मनुष्यके समस्त शुभकर्मोंका नाश कर देती है। इसलिये श्रद्धालु होकर देश, काल, पात्र और अपनी शक्तिका विचार करके थोड़ा-बहुत अतिथि-सत्कार अवश्य करना चाहिये। जब अतिथि अपने द्वारपर आवे तो बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह प्रसन्नचित्त होकर हँसते हुए मुखसे अतिथिका स्वागत करे तथा बैठनेको आसन और चरण धोनेके लिये जल देकर अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे। अपना हितैषी, प्रेमपात्र, द्वेषी, मूर्ख अथवा पण्डित—जो कोई भी बलिबैरव-देवके बाद आ जाय, वह स्वर्गतक पहुँचानेवाला अतिथि है। जो यज्ञका फल पाना चाहता हो, वह भूख-प्यास और परिश्रमसे दुखी तथा देश-कालके अनुसार प्राप्त हुए अतिथिको सत्कार-पूर्वक अन्न प्रदान करे। यज्ञ और श्राद्धमें अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषको विधिवत् भोजन कराना चाहिये। अन्न मनुष्योंका प्राण है, अन्न देनेवाला प्राणदाता होता है; इसलिये कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अन्न-दानकी विशेष चेष्टा रखनी चाहिये। जो मनुष्य धर्मपूर्वक धनका उपाजन करके भोजनमें भेद न रखते हुए एक वर्षतक सबका अतिथि-सत्कार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।

भूमि-दान, तिल-दान और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा

भगवान्ने कहा—अब मैं सबसे उत्तम भूमि-दानका वर्णन करता हूँ। भूमि-दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और भूमि छीन लेनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है। दूसरे दानोंके पुण्य समय पाकर क्षीण हो जाते हैं; किन्तु भूमि-दानके पुण्यका कर्म भी क्षय नहीं होता। जो लोग प्रचुर दक्षिणासे युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञोंके द्वारा देवताओंका यज्ञ करते हैं, वे भी भूमि-दानके समान उत्तम फलको नहीं पाते। जो मनुष्य श्रोत्रिय ब्राह्मणको भूमि दान करके फिर उसे अपने अधिकारमें नहीं लेता, उसके दानको चारों ओर चर्चा होती है और जबतक इस संसारको स्थिति बनी रहती है, तबतक वह स्वर्गलोकमें रहकर अपने पुण्यका फल भोगता है। जो मनुष्य श्रोत्रिय ब्राह्मणको सेतौसे भरो हुई भूमि दान करता है, उसके पितर महाप्रलयकालतक मृत्यु रहते हैं। ब्राह्मणको भूमि-दान करनेसे सब देवता, सूर्य, शंकर और मैं—ये सभी प्रसन्न होते हैं। भूमि-दानके पुण्यसे पवित्रचित्त हुआ दाता निःसंदेह मेरे परमधाममें निवास करता है। मनुष्य जीविकाके अभावमें जो कुछ पाप करता है, उससे गोकर्णमात्र भूमि दान करनेपर भी छुटकारा पा जाता है। एक सहितैतक उपवास, कृच्छ्र और चाण्डालन-व्रतका अनुष्ठान तथा सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, वह सारा पुण्य गोकर्णमात्र भूमि दान करनेसे प्राप्त हो जाता है।

युधिष्ठिरने कहा—देवेवर। आपको नमस्कार है। मुझे गोकर्णमात्र भूमिदाता ठीक-ठीक माप मतलानेकी कृपा कीजिये।

भगवान्ने बोले—राजन्! पुरबसे परिव्रम तथा उत्तरसे वक्षितन चारों ओर तोस-तोस दग्ध नापनेसे जितनी भूमि होती है, उसको गोकर्णमात्र भूमि कहते हैं। जितनी भूमिमें खुली हुई सी गीएँ बंलौं और बछड़ेके साथ मूलपूर्वक रह सकें, उतनी भूमिको गोकर्ण कहते हैं। भूमिदाता दान करनेवाले पुरुषके पास यमराजके दूत नहीं फटकने पाते; मृत्युके दग्ध, बाह्य कुम्भीपाक, मयानक बधनपाग, दीव आदि नरक, बैतरणी नदी और कठोर धम-आतनाएँ भी उसे नहीं सताती। चित्रगुप्त, कर्ति, काल, कृतान्त, मृत्यु और साक्षान् यमवान् मम भी भूमिदान करनेवालेको पूजा करते हैं। इन्द्र, प्रजापति, इन्द्र, देवता, ऋषि और स्वयं मैं—ये सभी प्रसन्न होकर भूमिदाताका पूजन करते हैं। जिसके बुद्धिके लोग जीविकाके अभावसे दुर्बल हो गये हों, जिसकी गीएँ और घोड़े भी बुजने-मलले दिखायी देते हों तथा जो सरा अतिपि-सत्कार

करनेवाला हो, ऐसे ब्राह्मणको भूमि-दान देना चाहिये; क्योंकि वह परलोकके लिये सज्जाना है। जिसके बुद्धिहीन बन्धु पाए हों—ऐसे श्रोत्रिय, अग्निहोत्री, व्रतधारी एवं बरिष्ठ ब्राह्मणको भूमि देनी चाहिये। जैसे धाय अपना दूध पिताकर पुत्रका पासन-पीवण करती है, वही प्रकार दानमें ही हुई भूमि दातापर अनुग्रह करती है। जैसे गौ अपना दूध पिताकर बछड़ेका पासन करती है, वैसे ही सर्व-गुणसम्पन्न भूमि अपने दाताका कल्याण करती है। जिस प्रकार जलसे सोवे हुए बीज अङ्कुरित होते हैं, वैसे ही भूमि-दाताके अनुरोध प्रतिदिन पूर्ण होते रहते हैं। जैसे पुष्पका तेज शमस्त धन्धकारको बुर कर देता है, उसी प्रकार भूमि-दान मनुष्यके सम्पूर्ण पापोंका भारा कर जाता है। जो मनुष्य भूमिदाता दान करता है, वह दस पीढ़ी पृथ्वी-तकके पूर्वजोंका और दस पीढ़ी बादतक होनेवाली संतानोंका उदार कर देता है; किन्तु जो बित्तहीन भूमि छीन लेता है, वह दस पुष्पों की दस वंशधरोंको भी नरकमें डुबो देता है। जो भूमि-दानकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता अथवा देकर फिर छीन लेता है, उसे बरभके पारसे बांधकर पीठ और रङ्गको धरे हुए नरक-दुग्धमें डाला जाता है। जो अपने दाताके ही हुई भूमिका अग्रहण करता है, उसके लिये नरकको उदार पानिका कोई उपाय नहीं है। जो ब्राह्मणका संत पीन लेता है, वह बारह पीढ़ीतकके पूर्वजोंको नरकमें डाल देता है और स्वयं कोड़ेकी धीनिमें जन्म लेता है तथा उसके कर्मों छुटकारा नहीं पाता। जो ब्राह्मणको भूमि-दान देकर फिर उग्राये जीविका चलाता है, उसे एक सप्ताह गो-हृत्पात्रा कम मिलता है। यह पापात्मा जो बिले तिर करके कुम्भीनाक नरकमें सरका दिया जाता है और एक हजार दिव्य कर्णोत्क उममें पचना रहता है। तत्परचात् उस नरकमें छूटेनर उसे तो बल्मीनक इस सौरमें कुत्ता होना पड़ता है। जिसमें हतमे कोतकर बीज बो दिये गये हों तथा जहाँ हरी-मरी लेनी सहरा एही हो, ऐसी भूमि बरिष्ठ ब्राह्मणको देनी चाहिये। अथवा जहाँ कनका सुमीता हो, वह भूमि दानमें देनी चाहिये। राजन्! इस प्रकार प्रमत्तचित्त होकर मनुष्य यदि पृथ्वीका दान करे तो वह सम्पूर्ण अजोवाञ्छित कामनाओंके प्राप्य करता है। बुजनेसे राज्ञासेते इस पृथ्वीके दानमें दिना है और ब्रह्म-ये यमी दे रहे हैं। यह भूमि जब जिसके अधिपत्यमें रहती है, उस समय वही उसे दानमें देना और उसके कर्तव्य बानी होता है।

जिसकी जीविका क्षीण और गीएँ दुर्बल हो गयी हैं, ऐसे दरिद्र ब्राह्मणको जो चाँदी दान करता है, वह अपने इच्छानुसार स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है। फिर पुण्यका क्षय होनेपर वहाँसे उतरकर इस लोकमें महापराक्रमी राजा होता है। जो श्रोत्रिय ब्राह्मणको—विशेषतः दरिद्रको तिलका पर्वत दान करता है, वह दस हजार वृषोत्सर्गके पुण्यको प्राप्त करके तत्काल निष्पाप हो जाता है। तिलका दान करनेवाला मनुष्य महान् यश और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्ति पाकर सात हजार वर्षोंतक पितृलोकमें सुख और आनन्द भोगता है। जो दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणको तिलकी गौ प्रदान करता है, उसे एक हजार गो-दानका फल मिलता है। जो जितने कुड़वोंमें^१ तिल भरकर उससे बनायी हुई तिलकी गौका दान करता है, वह उतने ही करोड़ वर्षोंतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तिल, गौ, सोना,

अन्न और पृथ्वी—इतने पदार्थ यदि ब्राह्मणोंको दिये जायें तो ये दाताका उद्धार कर देते हैं। सदाचारसम्पन्न, अग्निहोत्री तथा अलोलुप ब्राह्मणकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह परलोकमें काम देनेवाला खजाना है। जो ब्राह्मण वेदका विद्वान्, अग्निहोत्रपरायण, जितेन्द्रिय, शूद्रके अन्नसे दूर रहनेवाला और दरिद्र हो, उसकी घृतपूर्वक पूजा करनी चाहिये। जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाला, सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहनेवाला, नित्यप्रति स्वाध्याय-परायण, वृषलका अन्न न खानेवाला, ऋतुकालमें ही अपनी स्त्रीसे समागम करनेवाला और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेवाला हो, वह ब्राह्मण दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता है। जो मेरा भवत, मुझमें अनुराग रखनेवाला, मेरे भजनमें परायण और मुझे ही कर्मफलोंको अर्पण करनेवाला है, वह ब्राह्मण अवश्य संसार-समुद्रसे तार सकता है।

विविध प्रकारके दानोंकी महिमा

युधिष्ठिरने कहा—माधव ! आपके मुँहसे इस धर्ममय अमृतका श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। अब दूसरे प्रकारके दानोंका, जिन्हें अभीतक आपने नहीं बतलाया है, वर्णन कीजिये और क्रमशः उनका फल भी बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान्ने कहा—राजन् ! गाड़ी खींचनेवाला एक बैल भी दस गौओंके समान है। जो मनुष्य श्रोत्रिय, सदाचारी एवं दरिद्र ब्राह्मणकी भारी बोझ ढोनेमें समर्थ एक जोड़ा बैल दान करता है, उसको एक हजार गौओंके दानका फल मिलता है। पाण्डुनन्दन ! दरिद्रको ही दान देना चाहिये, धनवान्को नहीं। वर्षाका फल तालावमें ही देखा जाता है, समुद्रमें नहीं। जो पुरुष वेदके जाननेवाले धनहीन ब्राह्मणको दीपकके प्रकाशसे युक्त, शय्या और आसनसे विभूषित, भाँति-भाँतिके वर्तनों और अन्य साम-ग्रियोंसे युक्त, धन-धान्यसे अलंकृत दासी, गौ और भूमिसे सम्पन्न तथा सब प्रकारके साधनोंसे परिपूर्ण गृह प्रदान करता है, उसको देवता, पितर, अग्नि और ऋषिगण प्रसन्न होकर सूर्यके समान तेजस्वी विमान देते हैं। तथा उसीमें बैठकर वह अनुपम शोभासे सम्पन्न हो परम उत्तम ब्रह्मलोकमें पदार्पण करता है और वहाँ महाप्रलयपर्यन्त बड़े आनन्दसे समय

व्यतीत करता है। जो मनुष्य भक्तिके साथ वस्त्र, माला और चन्दन चढ़ाकर ब्राह्मणकी पूजा करता तथा उसे बिछौनोंसहित शय्या दान करता है, वह वेदमन्त्रोंके बलसे चलनेवाले सुन्दर विमानपर आरूढ़ हो सप्तर्षियोंके लोकमें जाता और वहाँ ब्रह्मवादी महर्षियोंसे पूजित होता है। उस लोकमें तीस चतुर्युगीतक देवताओंकी भाँति फ्रीडा करके वह मनुष्यलोकमें वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है। जो रास्तेके थके-भाँदे दुर्बल ब्राह्मणको विश्राम देता है, उसका एक वर्षका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तदनन्तर जब वह भक्तिपूर्वक उस अतिथिके दोनों चरणोंको पखारता है, उस समय उसके दस वर्षके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यदि वह उसके दोनों पैरोंमें घी या तेल मलकर उसकी पूजा करता है तो उसके बारह वर्षोंके पाप तुरन्त नष्ट हो जाते हैं। जो घरपर आये हुए ब्राह्मणका स्वागत करके, उसे आसन और अभ्यु-त्थान देकर पूजन करता है, वह देवताओंका प्रिय होता है। अतिथिके स्वागतसे अग्नि, उसे आसन देनेसे इन्द्र और अभ्युत्थान देने (अगवानी करने) से अतिथियोंपर प्रेम रखनेवाले पितर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार अग्नि, इन्द्र और पितरोंके प्रसन्न होनेपर मनुष्यका एक वर्षका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मणको सवारी दान करता है, वह रत्नोंसे चित्रित विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको जाता है। जो पुरुष पत्ते, फूल और फलोंसे भरे हुए वृक्षको वस्त्रों और आभूषणोंसे विभूषित करके चन्दन और फूलोंसे

१. लोहे या लकड़ीका बना हुआ अन्न नापनेका एक पुराना मान, जो चार अगुल चौड़ा और उतना ही गहरा होता था।

—हिन्दीशब्दसागर

उसकी पूजा करता तथा वेदवेत्ता ब्राह्मणको भोजन कराकर दक्षिणाके साथ यह धुष दान कर देता है, यह सुवर्णजटित सुन्दर विमानपर बैठकर जय-जयकारके शब्द सुनता हुआ इन्द्रलोकमें जाता है और वहाँ उसके मनमें जो-जो इच्छाएँ होती हैं, उन सबको कल्पवृक्ष पूर्ण करता है। जो पुण्य भक्तिपूर्वक मन्दिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिमाको स्थापना करता और दूसरेसे उसकी पूजा करावाता या स्वयं भक्तिके साथ पूजा करता है, वह एक हजार अरबमेघ-यन्त्रका फल पाकर मेरे परमघामको पधारता तथा वहाँसे कभी लौटकर इस लोकमें नहीं आता। जो मनुष्य वेदमन्दिमें, ब्राह्मणके घरमें, गौसालामें और चौराहेपर दीपक जलाता है, वह सुवर्णमय विमानपर बैठकर सम्पूर्ण विश्वाओंको वेदीप्यमान करता हुआ सूर्यलोकको जाता है; उस समय ध्येष्ठ देवता उसकी सेवामें जपस्मित रहते हैं। यह महातपस्वी पुण्य करोड़ों वर्षोंतक सूर्यलोकमें यथेष्ट विहार करनेके परचात् मर्त्यलोकमें आकर वेद-वेदाङ्गोंमें पारंगत ब्राह्मण होता है। जो मनुष्य ब्राह्मणको करका (कमण्डलु), कणिका (गिलास) अथवा महान् जलपात्र दान करता है, वह सदा वृत्त रहता है; उसे सब प्रकारके सुगन्धित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इन्द्रियाँ और मन सदा प्रसन्न रहते हैं। इतना ही नहीं, वह हंस और सारसोंसे जुते हुए सुन्दर विमानपर बैठकर दिव्य गण्यवर्ति सेवित ब्रह्मलोकमें जाता है। जो धर्मिक तीन महानोंमें जोविके जीवनमृत जतका दान करता है, उसे एक करोड़ कपिला-दानका पुण्यफल प्राप्त होता है तथा वह पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान विमानपर आहूट होकर इन्द्र-मन्वनकी यात्रा करता है। वहाँ देवता और गण्यों से सेवित होकर तीस करोड़ मुर्गांतक यथेष्ट सुख भोगनेके परचात् इस लोकमें आकर चारों वेदोंका ज्ञाता ब्राह्मण होता है। सिरमें सगानेके त्रिये तेल दान करनेसे मनुष्य तेजस्वी, दर्शनीय, सुन्दर, हृषवान्, शूरवीर और पर्यन्त होता है। यज्ञ-दान करनेवाला पुण्य भी तेजस्वी, दर्शनीय, सुन्दर, भीसम्पन्न और मनोरम होता है। जो पुण्य जूता और छाता दान करता है, वह महान् तेजसे सम्पन्न हो सौनेके बने हुए सुन्दर रथपर बैठकर इन्द्रलोकमें जाता है। जो काठकी खड़ाऊँ दान करते हैं, वे काष्ठनिमित्त विमानोंपर आहूट होकर ध्येष्ठ देवताओंसे सेवित हो धर्मराजके रमणीय नगरमें प्रवेश करते हैं। दत्तक-का दान करनेसे मनुष्य मधुरभाषी होता है, उसके मुँहसे सुगन्ध निकलती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान् एवं बुद्धि और सौभाग्यसे सम्पन्न होता है। जो पुण्य बेशालके महोदय विशाला नक्षत्रके दिन अत्यन्त भक्तिपूर्वक सूर्यनामपणजी

प्रसन्नताके उद्देश्यसे ब्राह्मणोंकी विधिबन्धु पूजा करके उन्हें तिल धौर गूदके सह-दान करते हैं, उन्हें विधिबन्धु गो-दान करनेका फल मिलता है तथा वे मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होते हैं।

जो मनुष्य प्रतिदिन और बुद्धिजीवियोंको भोजन करा सनेके परचात् स्वयं भोजन करता, सदा श्रतका पासन करता, सत्य बोधता, श्रौणसे दूर रहता तथा स्नान आदिसे द्वारा सर्वथा पवित्र रहता है, वह दिव्य विमानके द्वारा इन्द्रलोकको यात्रा करता है। जो एक वर्षतक प्रतिदिन एक व्रत भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, श्रौणको काबमें रखता तथा शय्य और शौचका पालन करता है, वह भी दिव्य विमानमें बैठकर इन्द्रलोकमें परांपण करता है। जो एक वर्षतक चौधे व्रत अर्थात् प्रति दूसरे दिन भोजन करता, ब्रह्मचर्यका पालन करता और इन्द्रियोंको काबमें रखता है, वह विधिज पंतवामे मोरोंसे जुते हुए अद्भुत ध्वजोंसे शोभाप्यमान दिव्य विमानपर आहूट हो महेन्द्रलोकमें गमन करता है और वहाँ बारह करोड़ वर्षोंतक आनन्दका अनुभव करता है। जो मूममें धित सगाकर एक महौनेतक उपवास करता तथा प्रतिदिन स्नान करते हुए इन्द्रिय, श्रेय और बुद्धिको वारमें रखता है, इस प्रकार नियम समाप्त होनेपर ध्येष्ठ ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर उन्हें प्रसन्नचित्तसे दक्षिणा देता है, वह महान तेजस्वी होकर सर्वध्येष्ठ ब्रह्मलोकमें जाता है और वहाँ दिव्य ऋषियोंने सेवित होकर सौ करोड़ वर्षोंतक इष्टानुसार आनन्दका उपभोग करता है।

जो मनुष्य पवित्र और मेरी सेवामें परांपण होकर मेरे धीविग्रहमें मन लगता (मेरा ध्यान करता) तथा चतुर्दशीके दिन द्र अथवा दक्षिणापूर्तिमें धित एवाप करता है, वह महान् तपस्वी पुण्य सिद्धों, ब्रह्मरिषियों और देवताओंसे पुत्रिन होकर गन्धर्वाँ और मूर्त्तोंका गान सुनता हुआ मूममें वा संकरमें प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस संसारमें फिर जन्म नहीं होता। जो मनुष्य गो, स्त्री, गुरु और ब्राह्मणकी रक्षाके निन्दे प्रणय दे डालते हैं, वे इन्द्रलोकमें जाते और वहाँ इष्टानुसार विचरनेवाले सुवर्णके बने हुए विमानपर रहकर एक मन्वन्तर-तक दिव्य आनन्दका अनुभव करते हैं। बेनेरी प्रतिता जो हुई बल्लुको न बेनेसे अथवा बी हुई बल्लुको छीन सनेसे प्रममर-का किया हुआ सारा दान-मुष्य मट्ट हो जाता है। जो दान श्रेयिय ब्राह्मणकी नहीं दिया जाता, उसका कुछ फल नहीं मिलता तथा जहाँ श्रेयिय ब्राह्मण भोजन नहीं करते, वहाँ देवता भी आहार नहीं ग्रहण करते। वेदेवता ब्राह्मणोंसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है तथा उन्हें भोजन करनेसे बढ़कर परमेश्वरके निन्दे दूसरी है

जिसकी जीविका क्षीण और गौएँ दुर्बल हो गयी हैं, ऐसे दरिद्र ब्राह्मणको जो चाँदी दान करता है, वह अपने इच्छानुसार स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है। फिर पुण्यका क्षय होनेपर वहाँसे उतरकर इस लोकमें महापराक्रमी राजा होता है। जो श्रोत्रिय ब्राह्मणको—विशेषतः दरिद्रको तिलका पर्वत दान करता है, वह दस हजार वृषोत्सर्गके पुण्यको प्राप्त करके तत्काल निष्पाप हो जाता है। तिलका दान करनेवाला मनुष्य महान् यश और इच्छानुसार रूप धारण करनेको शक्ति पाकर सात हजार वर्षांतक पितृलोकमें सुख और आनन्द भोगता है। जो दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणको तिलकी गौ प्रदान करता है, उसे एक हजार गो-दानका फल मिलता है। जो जितने कुड़वाँमें^१ तिल भरकर उससे बनायी हुई तिलकी गौका दान करता है, वह उतने ही करोड़ वर्षांतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तिल, गौ, सोना,

अन्न और पृथ्वी—इतने पदार्थ यदि ब्राह्मणोंको दिये जायें तो ये दाताका उद्धार कर देते हैं। सदाचारसम्पन्न, अग्निहोत्री तथा अलोलुप ब्राह्मणकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह परलोकमें काम देनेवाला खजाना है। जो ब्राह्मण वेदका विद्वान्, अग्निहोत्रपरायण, जितेन्द्रिय, शूद्रके अन्नसे दूर रहनेवाला और दरिद्र हो, उसकी यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिये। जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाला, सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहनेवाला, नित्यप्रति स्वाध्याय-परायण, वृषलका अन्न न खानेवाला, ऋतुकालमें ही अपनी स्त्रीसे समागम करनेवाला और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेवाला हो, वह ब्राह्मण दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता है। जो मेरा भक्त, मुझमें अनुराग रखनेवाला, मेरे भजनमें परायण और मुझे ही कर्मफलोंको अर्पण करनेवाला है, वह ब्राह्मण अवश्य संसार-समुद्रसे तार सकता है।

विविध प्रकारके दानोंकी महिमा

युधिष्ठिरने कहा—माधव ! आपके मुँहसे इस धर्ममय अमृतका श्रवण करते हुए मुझे नृप्ति नहीं होती। अब दूसरे प्रकारके दानोंका, जिन्हें अभौतक आपने नहीं बतलाया है, वर्णन कीजिये और क्रमशः उनका फल भी बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान्ने कहा—राजन् ! गाड़ी खींचनेवाला एक बैल भी दस गौओंके समान है। जो मनुष्य श्रोत्रिय, सदाचारी एवं दरिद्र ब्राह्मणको भारी बोझ होनेमें समर्थ एक जोड़ा बैल दान करता है, उसको एक हजार गौओंके दानका फल मिलता है। पाण्डुनन्दन ! दरिद्रको ही दान देना चाहिये, धनवान्को नहीं। वर्षाका फल तालाबमें ही देखा जाता है, समुद्रमें नहीं। जो पुरुष वेदके जाननेवाले धनहीन ब्राह्मणको दीपकके प्रकाशसे युक्त, शय्या और आसनोत्से विभूषित, भक्ति-भक्तिके वर्तनों और अन्य सामग्रियोंसे युक्त, धन-धान्यसे अलंकृत दासी, गौ और भूमिसे सम्पन्न तथा सब प्रकारके साधनोंसे परिपूर्ण गृह प्रदान करता है, उसको देवता, पितर, अग्नि और ऋषिगण प्रसन्न होकर सूर्यके समान तेजस्वी विमान देते हैं। तथा उसीमें बैठकर वह अनुपम शोभासे सम्पन्न हो परम उत्तम ब्रह्मलोकमें पदार्पण करता है और वहाँ महाप्रलयपर्यन्त बड़े आनन्दसे समय

व्यतीत करता है। जो मनुष्य भक्तिके साथ वस्त्र, माला और चन्दन चढ़ाकर ब्राह्मणकी पूजा करता तथा उसे बिछौनोंसहित शय्या दान करता है, वह वेदमन्त्रोंके बलसे चलनेवाले सुन्दर विमानपर आरूढ़ हो सप्तर्षियोंके लोकमें जाता और वहाँ ब्रह्मवादी महर्षियोंसे पूजित होता है। उस लोकमें तीस चतुर्युगीतक देवताओंकी भाँति ऋीडा करके वह मनुष्यलोकमें वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है। जो रास्तेके थके-माँदे दुर्बल ब्राह्मणको विश्राम देता है, उसका एक वर्षका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तदनन्तर जब वह भक्तिपूर्वक उस अतिथिके दोनों चरणोंको पखारता है, उस समय उसके दस वर्षके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यदि वह उसके दोनों पैरोंमें घी या तेल मलकर उसकी पूजा करता है तो उसके बारह वर्षोंके पाप तुरन्त नष्ट हो जाते हैं। जो घरपर आये हुए ब्राह्मणका स्वागत करके, उसे आसन और अभ्युत्थान देकर पूजन करता है, वह देवताओंका प्रिय होता है। अतिथिके स्वागतसे अग्नि, उसे आसन देनेसे इन्द्र और अभ्युत्थान देने (अगवानी करने) से अतिथियोंपर प्रेम रखनेवाले पितर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार अग्नि, इन्द्र और पितरोंके प्रसन्न होनेपर मनुष्यका एक वर्षका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मणको सवारी दान करता है, वह रत्नोंसे चित्रित विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको जाता है। जो पुरुष पत्ते, फूल और फलोंसे भरे हुए वृक्षको वस्त्रों और आभूषणोंसे विभूषित करके चन्दन और फूलोंसे

१. लोहे या लकड़ीका बना हुआ अन्न नापनेका एक पुराना मान, जो चार अगुल चौड़ा और उतना ही गहरा होता था।

—हिन्दीशब्दसागर

उसकी पूजा करता तथा वेदवेत्ता ब्राह्मणको भोजन कराकर दक्षिणाके साथ वह घूस दान कर देता है, वह सुवर्णजटित सुन्दर विमानपर बैठकर जय-जयकारके शब्द सुनता हुआ इन्द्रलोकमें जाता है और वहाँ उसके मनमें जो-जो इच्छाएँ होती हैं, उन सबको कल्पयूस पूर्ण करता है। जो पुरुष भवितपूर्वक मन्दिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिमाकी स्थापना करता और दूसरेसे उसको पूजा करवाता या स्वयं भवितके साथ पूजा करता है, वह एक हजार अरबमेघ-यज्ञका फल पाकर मेरे परमधामको पधारता तथा वहुसि कमी लौटकर इस लोकमें नहीं आता। जो मनुष्य देवमन्दिरमें, ब्राह्मणके घरमें, गोशालामें और चौराहेपर दीपक जलाता है, वह सुवर्णमय विमानपर बैठकर सम्पूर्ण दिशाओंको देवीध्यान करता हुआ सूर्यलोकको जाता है; उस समय धेठ देवता उसकी सेवामें उपस्थित रहते हैं। वह महातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षोंतक सूर्यलोकमें यथेष्ट विहार करनेके परचात् मत्स्यलोकमें आकर वेद-वेदाङ्गोंमें पारंगत ब्राह्मण होता है। जो मनुष्य ब्राह्मणको करका (कमण्डलु), कर्णिका (गिलास) अथवा महान् जलपात्र दान करता है, वह सदा तृप्त रहता है; उसे सब प्रकारके सुगन्धित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इन्द्रियाँ और मन सदा प्रसन्न रहते हैं। इतना ही नहीं, वह हंस और सारसोंसे जुते हुए सुन्दर विमानपर बैठकर दिव्य गन्धर्वोंसे सेवित वरुणलोकमें जाता है। जो गर्माँके तीन महानोंमें जीवोंके जीवनमूत जलका दान करता है, उसे एक करोड़ कपिला-दानका पुण्यफल प्राप्त होता है तथा वह पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान विमानपर आरुढ़ होकर इन्द्र-भवनकी यात्रा करता है। वहाँ देवता और गन्धर्वों से सेवित होकर तीस करोड़ युगोंतक यथेष्ट सुख भोगनेके परचात् इस लोकमें आकर चारों वेदोंका ज्ञाता ब्राह्मण होता है। सिरमें लगानेके लिये तेल दान करनेसे मनुष्य तेजस्वी, दर्शनीय, सुन्दर, रूपवान्, शूरवीर और वण्डित होता है। बस्त्र-दान करनेवाला पुरुष भी तेजस्वी, दर्शनीय, सुन्दर, श्रीसम्पन्न और मनोरम होता है। जो पुरुष जूता और छाता दान करता है, वह महान् तेजसे सम्पन्न हो सोनेके बने हुए सुन्दर रूपपर बैठकर इन्द्रलोकमें जाता है। जो काठकी छड़ोंमें दान करते हैं, वे काष्ठनिर्मित विमानोंपर आरुढ़ होकर धेठ देवताओंसे सेवित हो घमंराजके रमणीय नगरमें प्रवेश करते हैं। दान-का दान करनेसे मनुष्य मधुरभाषी होता है, उसके मुँहसे सुगन्ध निकलती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान् एवं बुद्धि और सीमाप्यसे सम्पन्न होता है। जो पुरुष वीसाखके महानोंमें विशाखा नक्षत्रके दिन अत्यन्त भवितपूर्वक सूर्यनारायणकी

प्रसन्नताके उद्देशसे ब्राह्मणोंको विधिबन्ध पूरा करके उन्हें तिल और गुड़के सङ्घ दान करते हैं, उन्हें विधिबन्ध मोक्षदान करनेका फल मिलता है तथा वे मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होते हैं।

जो मनुष्य अतिथि और कुटुम्बीजनोंको भोजन करा देनेके परचात् स्वयं भोजन करता, सदा धनका पासन करता, सत्य बोलता, क्रोधसे दूर रहता तथा स्नान आदिके द्वारा सर्वदा पवित्र रहता है, वह दिव्य विमानके द्वारा इन्द्रलोककी यात्रा करता है। जो एक वर्षतक प्रतिदिन एक वस्त्र भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोधकी भावमें रहना तथा लज्ज और शीवका पासन करता है, वह भी दिव्य विमानमें बैठकर इन्द्रलोकमें पदार्पण करता है। जो एक वर्षतक धीरे ब्रह्म अर्थात् प्रति दूसरे दिन भोजन करता, ब्रह्मचर्यका पासन करता और इन्द्रियोंकी भावमें रहता है, वह विचित्र पंखवाले मोरोंसे जुते हुए अद्भुत ध्वजासे शोभामान दिव्य विमानपर आरुढ़ हो महेंद्रलोकमें गमन करता है और वहाँ बारह करोड़ वर्षोंतक आनन्दका अनुभव करता है। जो भूमिमें वित्त लगाकर एक महानैतक उपवास करता तथा प्रतिदिन स्नान करते हुए इन्द्रिय, क्रोध और बुद्धि को बामें रखता है, इस प्रकार नियम समाप्त होनेपर धेठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें प्रसन्नचित्तसे दक्षिणा देता है, वह महान तेजस्वी होकर सर्वधेठ ब्रह्मलोकमें जाता है और वहाँ दिव्य श्रियाँसे सेवित होकर सौ करोड़ वर्षोंतक इच्छानुसार आनन्दका उपभोग करता है।

जो मनुष्य पवित्र और मेरी सेवामें परायण होकर मेरे धीविषहमें मन लगाता (मेरा ध्यान करता) तथा शत्रुदंतीके दिन रथ अथवा दक्षिणामूर्तिमें चित्त एकाग्र करता है, वह महान् तपस्वी पुरुष सिद्धों, ब्रह्मविद्याओं और देवताओंसे पूजित होकर गन्धर्वों और भूतोंका गान सुनता हुआ मूर्धमें या शंकरमें प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस संसारमें फिर जन्म नहीं होता। जो मनुष्य गौ, स्त्री, गृह और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये प्राण दे डालते हैं, वे इन्द्रलोकमें जाते और वहाँ इच्छानुसार विचरनेवाले सुवर्णके बने हुए विमानपर रहकर एक मन्वन्तर-तक दिव्य आनन्दका अनुभव करते हैं। देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तुको न देनेसे अथवा धी हुई वस्तुको छीन सेनेसे अन्धमर-का किया हुआ सारा दान-पुण्य नष्ट हो जाता है। जो दान धीव्रिय ब्राह्मणको नहीं दिया जाता, उसका कुछ फल नहीं मिलता तथा जहाँ धीव्रिय ब्राह्मण भोजन नहीं करते, वहाँ देवता भी आहार नहीं ग्रहण करते। वेदवेत्ता ब्राह्मणोंसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है तथा उन्हें भोजन करानेसे बढ़कर परलोकके लिये दूसरे कोई तिथि नहीं है।

पञ्चमहायज्ञ, विधिवत् स्नान और उसके अङ्गभूत कर्म, भगवान्‌के प्रिय पुष्प तथा भगवद्भक्तोंका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! द्विजातियोंको पञ्च-महायज्ञोंका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिये ? उन यज्ञोंके नाम भी बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान्‌ने कहा—युधिष्ठिर ! जिनके अनुष्ठानसे गृहस्थ पुरुषोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, उन पञ्चमहा-यज्ञोंका वर्णन करता हूँ; सुनो । ऋभुयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, और पितृयज्ञ—ये पञ्चयज्ञ कहलाते हैं । इनमें 'ऋभुयज्ञ' तर्पणको कहते हैं, 'ब्रह्मयज्ञ' स्वाध्यायका नाम है, समस्त प्राणियोंके लिये अन्नकी बलि देना 'भूतयज्ञ' है । अतिथियोंकी पूजाको 'मनुष्ययज्ञ' कहते हैं और पितरोंके उद्देश्यसे जो श्राद्ध आदि कर्म किये जाते हैं, उनकी 'पितृयज्ञ' संज्ञा है । हुत, अहुत, प्रहुत, प्राशित और बलिदान—ये पाकयज्ञ कहलाते हैं । वैश्वदेव आदि कर्मोंमें जो देवताओंके निमित्त हवन किया जाता है, उसे विद्वान् पुरुष 'हुत' कहते हैं । दान दी हुई वस्तुको 'अहुत' कहते हैं । ब्राह्मणोंको भोजन करनेका नाम 'प्रहुत' है । प्राणाग्निहोत्रकी विधिसे जो प्राणोंको पाँच प्रास अर्पण किये जाते हैं, उनकी 'प्राशित' संज्ञा है तथा गौ आदि प्राणियोंकी तृप्तिके लिये जो अन्नकी बलि दी जाती है, उसीका नाम बलिदान है । इन पाँच कर्मोंको पाकयज्ञ कहते हैं । कितनेही विद्वान् इन पाकयज्ञोंको ही पञ्चमहायज्ञ कहते हैं; किंतु दूसरे लोग, जो महायज्ञके स्वरूपको जाननेवाले हैं, ब्रह्मयज्ञ आदिको ही पञ्चमहायज्ञ मानते हैं । ये सभी सब प्रकारसे महायज्ञ बतलाये गये हैं । घरपर आये हुए भूले ब्राह्मणोंको यथाशक्ति निराश नहीं लौटाना चाहिये । जो मनुष्य प्रतिदिन इन पाँच यज्ञोंका अनुष्ठान किये बिना ही भोजन कर लेते हैं, वे केवल मल भोजन करते हैं । इसलिये विद्वान् द्विजको चाहिये कि वह प्रतिदिन स्नान करके इन यज्ञोंका अनुष्ठान करे । इन्हें किये बिना भोजन करनेवाला द्विज प्रायश्चित्तका भागी होता है ।

युधिष्ठिरने कहा—देवदेवेश्वर ! अपने इस भक्तको स्नान करनेकी विधि बताइये ।

भगवान्‌ बोले—पाण्डुनन्दन ! जिस विधिके अनुसार स्नान करनेसे द्विजगण समस्त पापोंसे छूट जाते हैं, उस परम पवित्र पापनाशक विधिका पूर्णरूपसे श्रवण करो । मिट्टी, गोबर, तिल, कुशा और फूल आदि शास्त्रोक्त सामग्री लेकर जलके समीप जाय । श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि वह नदीमें स्नान करनेके पश्चात् और किसी जलमें न नहाय । अधिक

जलवाला जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़े-से जलमें कभी स्नान न करे । जलके निकट जाकर शुद्ध और साफ जगहपर मिट्टी और गोबर आदि सामग्री रख दे और पानीसे बाहर हो अपने दोनों पैर धोकर दो बार आचमन करे । फिर जलाशयकी प्रदक्षिणा करके उसके जलको नमस्कार करे । जलाशयके जलपर अपने हाथ-पैर न पटके; क्योंकि जल सम्पूर्ण देवताओंका तथा मेरा भी स्वरूप है; अतः उसपर प्रहार नहीं करना चाहिये । जलाशयके जलसे उसके किनारेकी भूमिको धोकर साफ करे, फिर पानीमें प्रवेश करके एक बार तिरके बुझकी ल्यावे, अङ्गुलीकी मूल न छुड़ाने लगे । इसके बाद पुनः आचमन करे—हाथका आकार गायके कानकी तरह बनाकर उससे तीन बार जल पीये । फिर अपने पैरोंपर जल छिड़ककर दो बार मुखमें जलका स्पर्श करे । तदनन्तर गलेके ऊपरी भागमें स्थित आँख, कान और नाक आदि समस्त इन्द्रियोंका एक-एक बार जलसे स्पर्श करे । फिर दोनों भुजाओंका स्पर्श करनेके पश्चात् हृदय और नाभिका भी स्पर्श करे । इस प्रकार प्रत्येक अङ्गमें जलका स्पर्श कराकर फिर मस्तकपर जल छिड़के । इसके बाद 'आपः पुनन्तु' मन्त्र पढ़कर फिर आचमन करे अथवा आचमनके समय ओङ्कार और ध्याहृतियोंसहित 'सदसस्पतिम्' इस ऋचाका पाठ करे । आचमनके बाद मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करे और 'इदं विष्णुः' इस मन्त्रको पढ़कर उसे क्रमशः ऊपरके, मध्यभागके तथा नीचेके अङ्गुलीमें लगावे । तत्पश्चात् वारुण सूक्तोंसे जलको नमस्कार करके स्नान करे । यदि नदी हो तो जिस ओरसे उसकी धारा आती हो, उसी ओर मुँह करके तथा दूसरे जलाशयोंमें सूर्यकी ओर मुँह करके स्नान करना चाहिये । ओङ्कारका उच्चारण करते हुए धीरेसे गोता लगावे, जलमें हलचल न पंदा करे । इसके बाद गोबरको हाथमें जलसे गोला करके उसके तीन भाग करे और उसे भी पूर्ववत् अपने शरीरके ऊर्ध्वभाग, मध्यभाग तथा अधोभागमें लगावे । उस समय प्रणव और व्याहृतियोंसहित गायत्रीमन्त्रकी पुनरावृत्ति करता रहे । फिर मुक्तमें चित्त लगाकर आचमन करनेके पश्चात् 'आपो हिष्ठा मयो' इत्यादि तीन ऋचाओंसे, 'तरत्समन्दीभिः' इत्यादि चार ऋचाओंसे और गौसूक्त, अश्वसूक्त, वैष्णवसूक्त, वारुणसूक्त, सावित्रसूक्त, ऐन्द्रसूक्त, वामदेव्यसूक्त तथा मुक्तसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य साममन्त्रोंके द्वारा शुद्ध जलसे अपने ऊपर मार्जन करे । फिर जलके भीतर स्थित होकर

अन्नमर्चणसूक्तका जप करे अथवा प्रणव एवं व्याहृतियोंसहित गायत्रीमन्त्र जपे या जबतक साँस दको रूँडे श्वेतक मेरा स्मरण करते हुए केवल प्रणवका ही जप करता रूँडे ।

इस प्रकार स्नान करके जलाराधके किनारे आकर धोये हुए शुद्धवस्त्र—धोती और चादर धारण करे । चादरको कालमें रस्सोको भाँति लपेटकर बाँधे नहीं । जो वस्त्रको कालमें रस्सोको भाँति लपेट करके वैदिक कर्मोंका अनुष्ठान करता है उसके कर्मको राक्षस, बानव और बेल्य बड़े दुर्घमें भरकर मष्ट कर बासते हैं; इसलिये कालको वस्त्रसे बाँधना नहीं चाहिये और इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिये । बस्त्र-धारणके परघात् धीरे-धीरे हाथ और पैरोंको मिट्टीसे मसकर धो डाले, फिर गायत्री-मन्त्र पढ़कर आचमन करे और पूँव या उत्तरकी ओर मुँह करके एकाग्रचित्तसे बेदोंका स्वाध्याय करे । जलमें खड़ा हुआ द्विज जलमें ही आचमन करके शुद्ध हो जाता है और स्थलमें स्थित पुद्ब स्वलमें ही आचमनके द्वारा शुद्ध होता है, अतः जल और स्वलसे कहीं भी स्थित होनेवाले द्विजको आत्मशुद्धिके लिये आचमन करना चाहिये । इसके बाद संध्योपासन करनेके लिये हाथमें कुरा लेकर पूर्वाभिमुख हो कुरासनपर बैठे और मुँहमें मन लगाकर एकाग्रभावसे प्राणायाम करे । फिर एकाग्रचित्त होकर एक हजार या एक सौ गायत्री-मन्त्रका जप करे । मन्त्रेह नामक राक्षसोंका नाश करनेके उद्देश्यसे गायत्री-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जल लेकर सूर्यको अर्घ्य प्रदान करे । उसके बाद आचमन करके 'उद्गर्गोर्जित' इस मन्त्रसे प्रायश्चित्तके लिये जल छोड़े । फिर अञ्जलिमें सुगन्धित पुष्प और जल लेकर सूर्यको अर्घ्य दे और आकारामुद्राका प्रवर्तन करे । तदनन्तर, सूर्यके एकाक्षर मन्त्रका बारह बार जप करे और उनके षडक्षर आदि मन्त्रोंकी छः बार पुनरावृत्ति करे । आकारामुद्राको बाहिनी ओरसे धुमाकर अपने मुँहमें बिलीन करे । इसके बाद दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर एकाग्रचित्तसे सूर्यकी ओर देखते हुए उनके मण्डलमें स्थित मुँह चार भुजाधारी तैशोमूर्ति नारायणका एकाग्रचित्तसे ध्यान करे । उस समय 'उज्जुयम्' 'चित्तं देवानाम्' 'तक्षसुः'—इन मन्त्रोंका, गायत्री-मन्त्रका तथा मुक्तसे सम्बन्ध रखनेवाले सूक्तोंका जप करके मेरे साममन्त्रों और पुरुषसूक्तका भी पाठ करे । तत्परघात् 'हंसः शुचिपत्' इस मन्त्रको पढ़कर सूर्य की ओर देखे और प्रदक्षिणापूर्वक उन्हे नमस्कार करे ।

इस प्रकार संध्योपासन समाप्त होनेपर क्रमशः ब्रह्म-जोका, मेरा, शंकरजोका, प्रजापतिको, देवताओं और देव-पियोंका, अङ्गोत्तहित बेदों, इतिहासों, यज्ञों और समस्त परामर्शका आचारायोंका जप-कुरा-प्राणायाम-संस्तन

तथा मूल-सम्बन्धियोंका, जनोंका, नवियों और अग्निदेवका मन्त्रा-पर्वतों, उनपर रखनेवाले देवताओं, ओम्कारियों और अक्षरमन्त्रों-का जलसे तर्पण करे । तर्पणके समय अग्निदेवको बाँधे कंधेपर रखते तथा बाँधे और बाँधे हाथको अक्षरमन्त्रसे जप देने शुरू उपयुक्त देवताओंमें प्रत्येकका नाम लेकर 'तुष्यताम्' शब्दका उच्चारण करे (बहि हो वा अत्रिष देवताओंको एक साथ जल दिया जाय तो क्रमशः द्विषयन और अङ्गुष्प—'तुष्यताम्' और 'तुष्यन्ताम्' इन दोनों उच्चारण करना चाहिये) । विद्वान् पुरुषको चाहिये कि अक्षरमन्त्रा मूर्तिपर आदि तथा नारद आदि ऋषियोंको निर्वाही होकर अर्घ्य जनेको पहले माताकी भाँति पढ़न करके एकाग्रचित्तसे तर्पण करे । इसके बाद अग्निदेवको बहिरि कंधेपर करके आगे बताये जानेवाले पितृसम्बन्धी देवताओं एवं पितरोंका तर्पण करे । कण्वदाट् अग्नि, सोम, देवस्वत, अङ्गुमा, अग्निप्लास और सोमपा—ये पितृसम्बन्धी देवता हैं । इनका तिलसहित जलसे कुरामाँवर तर्पण करे और 'तुष्यताम्' शब्दका उच्चारण करे । तदनन्तर, पितरोंका तर्पण आरम्भ करे; उनका क्रम इस प्रकार है—पिता, पितामह और प्रपितामह तथा माता, पितामही और प्रपितामही । इनके सिवा भुव, आचार्य, पितृम्बसा (बुआ), मातृम्बसा (मौसी), मातामही, उपास्याय, मित्र, बन्धु, शिष्य, ऋषियज और जाति-भाई आदिमेंसे भी जो मर गये हों, उनपर दया करके ईर्ष्या-द्वेष त्यागकर उनका भी तर्पण करना चाहिये ।

तर्पणके परघात् आचमन करके स्नानके समय पहले हुए बस्त्रको निचोड़ डाले । उस बस्त्रका जल भी कुलके मरे हुए संतानहीन पुरुषोंका भाग है । वह उनके स्नान करने और पीनेके काम आता है । अतः उस जलसे उनका तर्पण करना चाहिये, ऐसा विद्वानोंका कथन है । पूर्वोक्त देवताओं तथा पितरोंका तर्पण किये बिना स्नानका बस्त्र नहीं धोना चाहिये । जो मोहवशा तर्पणके पहले ही दौत बस्त्रको धो लेता है, वह ऋषियों और देवताओंको कष्ट पहुँचता है । उस अवस्थामें उसके पितर उसे शाप देकर निराश सौट जाते हैं, इसलिये तर्पणके परघात् आचमन करके ही स्नान-बस्त्र निचोड़ना चाहिये । तर्पणको क्रिया पूर्ण होनेपर दोनों पैरोंमें मिट्टी लगाकर उन्हे धो डाले और फिर आचमन करके पवित्र हो कुरासनपर बैठ जाय और हाथोंमें कुरा लेकर स्वाध्याय आरम्भ करे । पहले वेदका पाठ करके फिर उसके अन्य अङ्गोंका अध्ययन करे । अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन जो अध्ययन किया जाता है, उसको स्वाध्याय कहते हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदका स्वाध्याय करे । इन्द्रिन्द्रान् और परामर्शके अध्ययनको भी स्वाध्याय न छोड़े । स्वाध्याय

पूर्ण करके लड़ा होकर दिशाओं, उनके देवताओं, ब्रह्माजी, पृथ्वी, सोषधि, वाणी, वाचस्पति और सरिताओंको तथा मुझे भी प्रणाम करे। फिर जल लेकर प्रणवयुक्त 'नमोऽद्भ्यः' यह मन्त्र पढ़कर पूर्ववत् जल-देवताको नमस्कार करे। इसके बाद घृणि, सूर्य तथा आदित्य आदि नामोंका उच्चारण करके अपने मस्तरूपर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेवको प्रणाम करे और प्रणवका जप करते हुए एकाग्रचित्तसे उनका दर्शन करे। उसके बाद मुझे प्रिय लगनेवाले पुष्पोंसे नित्यप्रति मेरी पूजा करे।

युधिष्ठिरने कहा—माधव ! जो पुष्प आपको अत्यन्त प्रिय हों तथा जिनमें आपका निवास हो, उन सबका मुझसे वर्गन कीजिये।

भगवान्ने कहा—राजन् ! जो फूल मुझे बहुत प्रिय हैं, उनके नाम बताता हूँ; सावधान होकर सुनो। कुमुद, कर-चौर, चणक, चम्पा, मालती, जाति-पुष्प, नन्दावर्त, नन्दिक, पलाशके फूल और पत्ते, इर्वा, मूङ्गक और वनमाला—ये फूल मुझे विशेष प्रिय हैं। सब प्रकारके फूलोंसे हजारगुना अच्छा उत्पल माना गया है। उत्पलसे बढ़कर पद्म, पद्मसे शतदल, शतदलसे सहस्रदल, सहस्रदलसे पुण्डरीक और हजार पुण्डरीकसे बढ़कर तुलसीका गुण माना गया है। तुलसीसे श्रेष्ठ है वक्रपुष्प और उत्तमे भी उत्तम है सौवर्ण; सौवर्णके फूलसे बढ़कर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं है। फूल न मिलनेपर तुलसीके पत्तोंसे, पत्तोंके न मिलनेपर उनकी शाखाओंसे और शाखाओंके न मिलनेपर तुलसीकी जड़के टुकड़ोंसे मेरी पूजा करे। यदि वह भी न मिल सके तो जहाँ तुलसीका वृक्ष रहा हो, वहाँकी मिट्टीसे ही भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। अब त्यागनेयोग्य फूलोंके नाम बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। किङ्किणी, मुनि पुष्प, घुघूर, पाटल, अति-मुक्तक, पुत्राग, नस्तमालिक, यौधिक, क्षीरिकापुष्प, निर्गुण्डी, लाङ्गुली, जपा, अशोक, सेमलका फूल, ककुभ, कौबिदार, वैभौसक, पुरण्डक, कल्पक, कालक, अंकौल, गिरिकर्णो, नीले रंगके फूल तथा एक पंखड़ियाँवाले फूल—इन सबका त्याग कर देना चाहिये। आक (मदार) के फूल तथा आकके पत्तेपर रखते हुए फूल भी वर्जित हैं। नौमके फूलोंका भी परित्याग कर देना चाहिये। इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे सफेद पंखड़ियाँवाले सुगन्धित पुष्प जितने मिल सकें, उनके द्वारा भक्त पुरुषको मेरी पूजा करनी चाहिये।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! आपके भक्त कैसे होते हैं, तथा उनके नियम कौन-कौनसे हैं—यह बतातेकी कृपा कीजिये; क्योंकि मैं भी आपके चरणोंमें भक्ति रखता हूँ।

भगवान्ने कहा—राजन् ! जो दूसरे किसी देवताके भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हों तथा मेरे

भक्तजनोके साथ प्रेम रखते हों, वे ही मेरे भक्त कहे गये हैं। स्वर्ग और यश देनेवाले होनेके साथ ही जो मुझे विशेष प्रिय हों, ऐसे व्रतोंका ही मेरे भक्त पालन करते हैं। भक्त पुरुषको जलमें तैरते समय एक वस्त्रके सिवा दूसरा नहीं धारण करना चाहिये। त्वस्य रहते हुए दिनमें कमी नहीं सोना चाहिये। मधु-और मांसको त्याग देना चाहिये तथा मार्गमें ब्राह्मण, गौ, पीपल और अग्निके मिलनेपर उनकी प्रदक्षिणा करके जाना चाहिये। पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिये, खाली नमक नहीं खाना चाहिये तथा सौभाञ्जन और करञ्जनका भक्षण नहीं करना चाहिये। गौको प्रतिदिन घ्रास अर्पण करे और अन्नमें खटाई मिलाकर न खाय; दूसरेके घरसे उठाकर आयी हुई रसोई, चात्ती अन्न तथा भगवान्को भोग न लगाये हुए पदार्थका भी प्रयत्नपूर्वक त्याग करे। बहेड़े और करञ्जकी छायासे दूर रहे, कष्टमें पड़नेपर भी ब्राह्मणों और देवताओंकी निन्दा न करे। चारोवेदोंके विद्वान्, क्रियापरायण और बुद्धिमान् ब्राह्मणके शरीरमें भी छः वृषल निवास करते हैं। क्षत्रियोंके शरीरमें सात, वैश्योंके देहमें आठ और शूद्रोंमें इक्कीस वृषलोंका निवास माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और महानोह—ये छः वृषल ब्राह्मणके शरीरमें स्थित बताये गये हैं। गर्व, स्तम्भ (जड़ता), अहंकार, ईर्ष्या, द्रोह, पारुष्य (कठोर बोलना) और क्रूरता—ये सात क्षत्रिय-शरीरमें रहनेवाले वृषल हैं। तीक्ष्णता, कपट, माया, शठता, दम्भ, सरलताका अभाव, चुगली और असत्य-भाषण—ये आठ वैश्य-शरीरके वृषल हैं। लृप्णा, खानेकी इच्छा, निद्रा, आलस्य, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिन्ता, विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घबराहट, जड़ता, पाप, क्रोध, आशा, अश्रद्धा, अनवस्था, निरङ्कुशता, अपवित्रता और मलिनता—ये इक्कीस वृषल शूद्रके शरीरमें रहनेवाले बताये गये हैं। ये सभी वृषल जिसके भीतर न दिखायी दें, वही वास्तवमें ब्राह्मण कहलाता है। अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्त्विक, पवित्र और शोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे। जिसकी जिह्वा चञ्चल नहीं है, जो धैर्य धारण किये रहता है और चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए चलता है, जिसने अपने चञ्चल मन और वाणीको वशमें करके भयसे छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है। ऐसे अध्यात्मज्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ श्राद्धमें तृप्तिपूर्वक भोजन करते हैं, उनके पितर उस भोजनसे पूर्ण तृप्त होते हैं। धर्मकी जय होती है, अधर्मकी नहीं; सत्यकी विजय होती है, असत्यकी नहीं तथा क्षमाकी जीत होती है, क्रोधकी नहीं। इसलिये ब्राह्मणको क्षमाशील होना चाहिये।

कपिला गौका माहात्म्य और उसके दस भेद

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! दान और तपस्याके पुण्य-कर्मोंको सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णसे पूछा—'भगवन् ! जिते ब्रह्माजोने अग्निहोत्रकी सिद्धिके लिये पूर्वकालमें उत्सव किया था तथा जो सदा ही पवित्र मानो गयो है, उस कपिला गौका ब्राह्मणोंको किस प्रकार दान करना चाहिये ? वह पवित्र लक्षणवाली गौ किस दिन और कौसे ब्राह्मणको देनी चाहिये ? ब्रह्माजोने कपिला गौके कितने भेद बतलाये हैं ? इन सब बातोंको मैं यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—पाण्डुनन्दन ! यह विषय बड़ा ही पवित्र और पावन है, इसका ध्वज करनेसे पापी पुरुष भी पापसे मुक्त हो जाता है; अतः ध्यान देकर सुनो—पूर्वकालमें स्वयम्भू ब्रह्माजोने अग्निहोत्र तथा ब्राह्मणोंके लिये सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके कपिला गौको उत्पन्न किया था । कपिला गौ पवित्र वस्तुओंमें सबसे बढ़कर पवित्र, मङ्गल-जनक पदार्थोंमें सबसे अधिक मङ्गलकारिणी तथा पुण्योंमें परमपुण्यस्वरूपा है । वह तपस्याओंमें श्रेष्ठ तपस्या, व्रतोंमें उत्तम व्रत, दानोंमें श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है । पृथ्वीपर जितने पवित्र तीर्थ और मन्दिर हैं तथा संसारमें जो कुछ पवित्र और रमणीय वस्तुएं हैं, उन सबका तेज निकालकर विरवविद्याता ब्रह्माजोने जातृको तारनेके लिये कपिला गौकी सृष्टि की है । कपिला सम्पूर्ण तेजोंका पुञ्ज है; वह अमृत-स्वरूप, धेनु, शुद्ध, पवित्र करनेवाली और उत्तम है । द्विजातियोंको चाहिये कि वे सार्वकाल और प्रातःकालमें कपिला गौके दूध, दही अथवा घीसे अग्निहोत्र करें । जो ब्राह्मण कपिला गौके घी, दही अथवा दूधसे विधिवत् अग्निहोत्र करते, भक्तिपूर्वक अतिथियोंकी पूजा करते, शुद्धके अन्नसे दूध रहते तथा दम्भ और असत्यका सदा त्याग करते हैं, वे सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा सूर्यमण्डलके बीचसे होकर परम उत्तम ब्रह्मलोकमें जाते हैं । यहाँ ब्रह्माके दिव्यधाममें इच्छानुसार रूप धारण कर दयेष्ट स्वर्गोंपर विचरते हुए एक कल्पतक आनन्दका उपभोग करते हैं और ब्रह्माजोसे सदा सम्मानित होते रहते हैं । इस प्रकार कपिला गौ परमपवित्र और अमृतमय कुण्डने प्रकट करनेवाली अरणी है । पूर्वकालमें ब्रह्माजोने उसे अग्निके भीतर उत्पन्न किया था ।

युधिष्ठिर ! ब्रह्माजोकी आज्ञासे कपिलाके साँगेके अप्रमाणमें सदा सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं । जो मनुष्य सबेरे उठकर कपिला गौके सीप और मस्तकसे गिरती हुई जल-धाराको अपने सिरपर धारण करता है, वह उस पुण्यके

प्रमाणसे सदा पापरहित हो जाता है । बंने भाग निरनेकी जला झालती है, उसी प्रकार वह जल मनुष्यके तीन अन्धेकि पापोंको मत्त कर डालता है । जो कपिलाका मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इन्द्रियोंमें लगाता तथा उसने स्नान करता है, वह उस स्नानके पुण्यसे निष्पार हो जाता है; उसके तीन जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं । जो प्रातःकाल उठकर मस्तकसे साध कपिला गौको घासकी मूट्टी अर्पण करता है, उसके एक महीनेके पापोंका नाश हो जाता है । जो सबेरे गधने उठकर भक्तिपूर्वक कपिला गौकी परिष्कमा करता है, उसके द्वारा समूची पृथ्वीकी परिष्कमा हो जाती है तथा एक-एक परिष्कामे बस-बस रातके पाप नष्ट होते हैं । जो पुरुष कपिला गौके पञ्चम्यसे नहाकर शुद्ध होता है, वह मानो गद्दा आदि समस्त तीर्थोंमें स्नान कर लेता है । यद्यपि पुरुषके उस स्नानसे बस रातके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । भक्तिपूर्वक कपिला गौका दाँन करके तथा उसके रसनेकी भासात्र सुनकर मनुष्य एक दिन-रातके पापको नष्ट कर डालता है । जो स्नान आदिसे पवित्र होकर कपिला गौके किसी भी अङ्गका स्पर्श करता है, उसका एक पंचका पाप दूर हो जाता है । एक मनुष्य एक हजार गौओंका दाव करे और दूसरा एक ही कपिला गौको दावमें डे तो सोररिपितामह ब्रह्माजोने उन दोनोंका फल बराबर बतलाया है । इसी प्रकार बौरे मनुष्य प्रमादवरा यदि एक ही कपिला गौकी हत्या कर डाले तो उसे एक हजार गौओंके बराबर पाप सफा है ।

ब्रह्माजोने कपिला गौके दस भेद बतलाये हैं; उनका वर्णन करता हूँ, सुनो । पहलो स्वर्णरजिता, दूसरी पीर-पिङ्गला, तीसरी आरस्तविङ्गला, चौथी पातपिङ्गला, पाँचवीं बभ्रुवर्णामा, छठी भेनविङ्गला, सातवीं रश्मि-पिङ्गला, आठवीं सूरपिङ्गला, नौवाँ पाटला और दसवें पुच्छपिङ्गला—ये दस प्रकारकी कपिला गौएँ बतलायी गयी हैं जो सब मनुष्योंका उद्धार करती हैं । वे मङ्गलमयी, पवित्र और सब पापोंको नष्ट करनेवाली हैं । गाड़ी सोचनेवाले बनेंकि

१. सुवर्णके समान पीले रंगवाली । २. पीर तथा पीले रंगवाली । ३. कुछ सानिया लिये हुए पीले नेत्रोंवाली । ४. जिसके गर्दनके भाग कुछ पीले हों । ५. जिसका छाया दाँरी पीले रंगका हो । ६. कुछ सरेपी लिये हुए पीले रोमवाली । ७. सुर्ध और पीली आँधोंवाली । ८. जिसके घुँघुर पीले रंगके हों । ९. जिसका हस्ता । १०. जिसकी पूँछके भाग पीले रंगके हों ।

पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं, उनके देवताओं, ब्रह्माजी, पृथ्वी, ओषधि, वाणी, वाचस्पति और सरिताओंको तथा मुझे भी प्रणाम करे। फिर जल लेकर प्रणवयुक्त 'नमोऽद्भ्यः' यह मन्त्र पढ़कर पूर्ववत् जल-देवताको नमस्कार करे। इसके बाद घृणि, सूर्य तथा आदित्य आदि नामोंका उच्चारण करके अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेवको प्रणाम करे और प्रणवका जप करते हुए एकाग्रचित्तसे उनका दर्शन करे। उसके बाद मुझे प्रिय लगनेवाले पुष्पोंसे नित्यप्रति मेरी पूजा करे।

युधिष्ठिरने कहा—माधव ! जो पुष्प आपको अत्यन्त प्रिय हों तथा जिनमें आपका निवास हो, उन सबका मुझसे वर्णन कीजिये।

भगवान्ने कहा—राजन् ! जो फूल मुझे बहुत प्रिय हैं, उनके नाम बताता हूँ; सावधान होकर सुनो। कुमुद, करवीर, चणक, चम्पा, मालती, जाति-पुष्प, नन्द्यावर्त, नन्दिक, पलाशके फूल और पत्ते, दूर्वा, भृङ्गक और वनमाला—ये फूल मुझे विशेष प्रिय हैं। सब प्रकारके फूलोंसे हजारगुना अच्छा उत्पल माना गया है। उत्पलसे बढ़कर पद्म, पद्मसे शतदल, शतदलसे सहस्रदल, सहस्रदलसे पुण्डरीक और हजार पुण्डरीकसे बढ़कर तुलसीका गुण माना गया है। तुलसीसे श्रेष्ठ है वक्पुष्प और उससे भी उत्तम है सौवर्ण; सौवर्णके फूलसे बढ़कर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं है। फूल न मिलनेपर तुलसीके पत्तोंसे, पत्तोंके न मिलनेपर उसकी शाखाओंसे और शाखाओंके न मिलनेपर तुलसीकी जड़के टुकड़ोंसे मेरी पूजा करे। यदि वह भी न मिल सके तो जहाँ तुलसीका वृक्ष रहा हो, वहाँको मिट्टीसे ही भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। अब त्यागनेयोग्य फूलोंके नाम बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। किङ्किणी, मुनि पुष्प, धूर्धूर, पाटल, अति-मुक्तक, पुत्राग, नक्तमालिक, यौधिक, क्षीरिकापुष्प, निर्गुण्डी, लाङ्गुली, जपा, अशोक, सेमलका फूल, ककुभ, कोविदार, वैभौतक, पुरण्टक, कल्पक, कालक, अंकोल, गिरिकर्णो, नीले रंगके फूल तथा एक पंखड़ियाँवाले फूल—इन सबका त्याग कर देना चाहिये। आक (मदार) के फूल तथा आकके पत्तेपर रखे हुए फूल भी वर्जित हैं। नीमके फूलोंका भी परित्याग कर देना चाहिये। इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे सफेद पंखड़ियोंवाले सुगन्धित पुष्प जितने मिल सकें, उनके द्वारा भक्त पुरुषको मेरी पूजा करनी चाहिये।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! आपके भक्त कैसे होते हैं, तथा उनके नियम कौन-कौनसे हैं—यह बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि मैं भी आपके चरणोंमें भक्ति रखता हूँ।

भगवान्ने कहा—राजन् ! जो दूसरे किसी देवताके भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हों तथा मेरे

भक्तजनोंके साथ प्रेम रखते हों, वे ही मेरे भक्त कहे गये हैं। स्वर्ग और यश देनेवाले होनेके साथ ही जो मुझे विशेष प्रिय हों, ऐसे व्रतोंका ही मेरे भक्त पालन करते हैं। भक्त पुरुषको जलमें तैरते समय एक वस्त्रके सिवा दूसरा नहीं धारण करना चाहिये। स्वस्थ रहते हुए दिनमें कभी नहीं सोना चाहिये। मधु-और मांसको त्याग देना चाहिये तथा भागमें ब्राह्मण, गौ, पीपल और अग्निके मिलनेपर उनकी प्रदक्षिणा करके जाना चाहिये। पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिये, खाली नमक नहीं खाना चाहिये तथा सौभाग्यजन और करञ्जनका सक्षण नहीं करना चाहिये। गौको प्रतिदिन घास अर्पण करे और अन्नमें खटाई मिलाकर न खाय; दूसरेके घरसे उठाकर आयी हुई रसोई, बासी अन्न तथा भगवान्को भोग न लगाये हुए पदार्थका भी प्रयत्नपूर्वक त्याग करे। बहेड़े और करञ्जकी छायासे दूर रहे, कष्टमें पड़नेपर भी ब्राह्मणों और देवताओंको निन्दा न करे। चारोविदोंके विद्वान्, क्रियापरायण और बुद्धिमान् ब्राह्मणके शरीरमें भी छः वृषल निवास करते हैं। क्षत्रियोंके शरीरमें सात, वैश्योंके देहमें आठ और शूद्रोंमें इक्कीस वृषलोंका निवास माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और महामोह—ये छः वृषल ब्राह्मणके शरीरमें स्थित बताये गये हैं। गर्व, स्तम्भ (जड़ता), अहंकार, ईर्ष्या, द्रोह, पारुष्य (कठोर बोलना) और क्रूरता—ये सात क्षत्रिय-शरीरमें रहनेवाले वृषल हैं। तीक्ष्णता, कपट, माया, शठता, दम्भ, सरलताका अभाव, चुगली और असत्य-भाषण—ये आठ वैश्य-शरीरके वृषल हैं। तृष्णा, खानेकी इच्छा, निद्रा, आलस्य, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिन्ता, विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, धबराहट, जड़ता, पाप, क्रोध, आशा, अश्रद्धा, अनवस्था, निरङ्कुशता, अपवित्रता और मलिनता—ये इक्कीस वृषल शूद्रके शरीरमें रहनेवाले बताये गये हैं। ये सभी वृषल जिसके भीतर न दिखायी दें, वही वास्तवमें ब्राह्मण कहलाता है। अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्त्विक, पवित्र और श्रेष्ठहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे। जिसकी जिह्वा चञ्चल नहीं है, जो धैर्य धारण किये रहता है और चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए चलता है, जिसने अपने चञ्चल मन और वाणीको वशमें करके भयसे छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है। ऐसे अध्यात्मज्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ श्राद्धमें तृप्तिपूर्वक भोजन करते हैं, उनके पितर उस भोजनसे पूर्ण तृप्त होते हैं। धर्मकी जय होती है, अधर्मकी नहीं; सत्यकी विजय होती है, असत्यकी नहीं तथा क्षमाकी जीत होती है, क्रोधकी नहीं। इसलिये ब्राह्मणको क्षमाशील होना चाहिये।

कपिला गौका माहात्म्य और उसके दस भेद

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! दान और तपस्याके पुण्य-कर्मोंको सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णसे पूछा—‘भगवन् ! जिसे ब्रह्माजीने अग्निहोत्रकी सिद्धिके लिये पूर्वकालमें उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र मानी गयी है, उस कपिला गौका ब्राह्मणोंको किस प्रकार दान करना चाहिये ? वह पवित्र सभणोंवाली गौ किस दिन और कौसे ब्राह्मणको देनी चाहिये ? ब्रह्माजीने कपिला गौके कितने भेद बतलाये हैं ? इन सब बातोंको मैं यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—पाण्डुनन्दन ! यह विषय बड़ा ही पवित्र और पावन है, इसका ध्वन्य करनेसे यापी पुण्य भी पापसे मुक्त हो जाता है; अतः ध्यान देकर सुनो—पूर्वकालमें स्वयम्भू ब्रह्माजीने अग्निहोत्र तथा ब्राह्मणोंके लिये सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके कपिला गौको उत्पन्न किया था । कपिला गौ पवित्र वस्तुओंमें सबसे बढ़कर पवित्र, मङ्गल-जनक पदार्थोंमें सबसे अधिक मङ्गलकारिणी तथा पुण्योंमें परमपुण्यत्वरूपा है । वह तपस्याओंमें श्रेष्ठ तपस्या, व्रतोंमें उत्तम व्रत, दानोंमें श्रेष्ठ दान और सबका असाय कारण है । पृथ्वीपर जितने पवित्र तीर्थ और मन्दिर हैं तथा संसारमें जो कुछ पवित्र और रमणीय वस्तुएँ हैं, उन सबका तेज निकालकर विरवधिघाता ब्रह्माजीने जगत्को तारनेके लिये कपिला गौकी सृष्टि की है । कपिला सम्पूर्ण तेजोंका पुञ्ज है; वह अमृत-स्वरूप, मेघ्य, शुद्ध, पवित्र करनेवाली और उत्तम है । द्विजातियोंको चाहिये कि वे साम्यकाल और प्रातःकालमें कपिला गौके दूध, दही अथवा घीसे अग्निहोत्र करें । जो ब्राह्मण कपिला गौके घी, दही अथवा दूधसे विधिवत् अग्निहोत्र करते, भक्तिपूर्वक अतिथियोंकी पूजा करते, शुद्धके अग्रसे दूर रहते तथा दम्भ और असत्यका सदा त्याग करते हैं, वे भूमिके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा सूर्यमण्डलके बीचसे होकर परम उत्तम ब्रह्मलोकमें जाते हैं । वहाँ ब्रह्माके दिव्यधाममें इच्छानुसार रूप धारण कर यथेष्ट स्थानोंपर विवरते हुए एक कल्पतक आनन्दका उपभोग करते हैं और ब्रह्माजीसे सदा सम्मानित होते रहते हैं । इस प्रकार कपिला गौ परमपवित्र और अमृतमय बुधको प्रकट करनेवाली अरुणी है । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने उसे अग्निके मोतर उत्पन्न किया था । युधिष्ठिर ! ब्रह्माजीकी आज्ञासे कपिलाके साँगेके अग्रभागमें सदा सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं । जो मनुष्य सबेरे उठकर कपिला गौके साँग और भस्तकसे गिरती हुई जल-धाराको अपने सिरपर धारण करता है, वह उस पुण्यके

प्रभावसे सहसा पापरहित हो जाता है । जैसे आग निकलेको जला झालती है, उसी प्रकार वह जल मनुष्यके तीन जन्मोंके पापोंको भस्म कर झालता है । जो कपिलाका मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इन्द्रियोंमें लगाता तथा उससे स्नान करता है, वह उस स्नानके पुण्यसे निष्पाप हो जाता है; उसके तीस जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं । जो प्रातःकाल उठकर मल्लिखे साम कपिला गौको घासकी मुट्टी अर्पण करता है, उसके एक महीनेके पापोंका नारा हो जाता है । जो सबेरे शयनसे उठकर भक्तिपूर्वक कपिला गौकी परिभ्रमा करता है, उसके द्वारा समूची पृथ्वीकी परिभ्रमा हो जाती है तथा एक-एक परिभ्रमासे दस-दस रातके पाप नष्ट होते हैं । जो पुराण कपिला गौके पञ्चगव्यसे नहाकर शुद्ध होता है, वह मानो गन्ना आदि सभस्त तीर्थोंमें स्नान कर लेता है । धृष्टानु पुत्रके उस स्नानसे दस रातके पाप सत्काल नष्ट हो जाते हैं । भक्तिपूर्वक कपिला गौका दर्शन करके तथा उसके रंमनेकी आवाज सुनकर मनुष्य एक दिन-रातके पापको नष्ट कर झालता है । जो स्नान आदिसे पवित्र होकर कपिला गौके किसी भी अङ्गका स्पर्श करता है, उसका एक वर्षका पाप दूर हो जाता है । एक मनुष्य एक हजार गौओंका दान करे और दूसरा एक ही कपिला गौको दानमें दे तो सौकृतितामह ब्रह्माजीने उन दोनोंका फल बराबर बतलाया है । इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिला गौको हत्या कर दालें तो उसे एक हजार गौओंके बंधका पाप लगता है ।

ब्रह्माजीने कपिला गौके दस भेद बतलाये हैं; उनका वर्णन करता हूँ, सुनो । पहली इवर्णकपिला, दूसरी गौर-पिङ्गला, तीसरी आरवतपिङ्गला, चौथी गलपिङ्गला, पाँचवीं बभ्रुवर्णामा, छठी श्वेतपिङ्गला, सातवीं रघन-पिङ्गला, आठवीं दूरपिङ्गला, नववीं पाटला और दहावीं पुच्छपिङ्गला।—वे दस प्रकारकी कपिला गौएँ बतलायी गयी हैं जो सदा मनुष्योंका उद्धार करती हैं । वे मङ्गलमयी, पवित्र और सब पापोंको नष्ट करनेवाली हैं । गाड़ी सौ बनेवाले बँडोंके

१. सुवर्णके समान पीले रंगवाली । २. गौर तथा पीले रंगवाली । ३. कुछ लालिमा लिये हुए पीले मेकौरानी । ४. जिसके गर्दनके बाल कुछ पीले हों । ५. जिसका सारा शरीर पीले रंगका हो । ६. कुछ सफेदी लिये हुए पीले रोमवाली । ७. सुर्ध और पीली आँखोंवाली । ८. जिसके छुर पीले रंगके हों । ९. जिसका हल्का सा न रंग हो । १०. जिसकी पूँछके बाल पीले रंगके हों ।

कविता गीका माहात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तथा नरक और स्वर्गमें ले जानेवाले पाप और पुण्योका वर्णन

पेशमायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इस प्रकार परम पुण्यमय कविता गीके उत्तम दानका वर्णन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भगवान् धीकृष्णसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया—
देवदेवेश्वर ! जब कविता गी ब्राह्मणको दानमें दी जाती है तो उसके सम्पूर्ण अङ्गोंमें देवता किस प्रकार रहते हैं ? आपने जो दस प्रकारकी कविता गीएँ बतलायी हैं, उनमेंसे जितनी कविताएँ पुण्यमयी मानी जाती हैं ? देवताओं और पितरोंके उनके ऊपर किस प्रकार अनुग्रह किया है ? और उन गीओंका रंग कैसा होता है ?—ये सब बातें सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है ।

भगवान्‌नुने कहा—राजन् ! परम पवित्र, गोपनीय एवं उत्तम धर्मका वर्णन करता हूँ; सुनो । जिस समय गी प्रसन्न कर रही हो और बछड़ेके दो पैर सिरसहित धोतिये बाहर दिखायी दे रहे हों, मुनिपंडितों द्वारा चहों उसके दानका उत्तम समय बतलाया गया है । जबतक बछड़ा भाकागमें ही लटक रहा हो, पुण्योपर नहीं गिरने पाया हो, सबक बहू गो पुण्योका स्वरूप मानी जाती है, इसलिये उसी अवस्थामें गीका दान करना चाहिये । युधिष्ठिर ! प्रसन्न-कालमें बछड़ेसहित गीके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं तथा उसके गर्मके अन्तर्गत धूलिके जितने कण भीप जाते हैं, जतने हजार वर्षोंतक दाता स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । बछड़ेसहित कविता गीको सोनेके आभूषणों तथा सब प्रकारके रत्नोंसे अलंकृत करके तिलोके साथ दानमें देना चाहिये । जो इस प्रकार दान करता है, उसके द्वारा नदी, समुद्र, पर्वत, मन और कानमेंसहित चारों ओरकी पुण्योका दान हो जाता है । इस प्रकारका दान पुण्योदानके समान ही माना जाता है । उसके द्वारा मनुष्य संसार-सागरसे पार होकर प्रजापतिके लोकमें जाता है । अहहृदय, भ्रूणहृदय, मोहहृदय तथा गुह्यस्त्रीगमन आदि महान् पातकोसे मुक्त मनस्य भी उपर्युक्त इस प्रकारके कविता गीका दान करनेसे मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य सबेरे उठकर सुम्भमें पवित्र रखते हुए इस परम पुण्यमय उत्तम कविता-दानके माहात्म्यका पाठ करता है, उसके पुण्यका फल सुनो । इस अध्यायका पाठ करनेवाला मनुष्य रात्रिमें मन-बाणों अथवा क्रियाद्वारा किये हुए सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो धाड़-कालमें इस अध्यायका पाठ करते हुए ब्राह्मणोंके भीक्षण आदिते मुक्त करता है, उसके पितर क्षत्र्य प्रसन्न होकर


अमृत भोजन करते हैं । जो सुम्भमें चित्त लगाकर इस प्रसंगको भक्तिपूर्वक सुनता है, उसके एक राजके सारे पाप तत्काल मट्ट हो जाते हैं ।

अब मैं कविता गीके सम्बन्धमें विशेष बानें बतला रहा हूँ । पहले जो मैंने सुनते दस प्रकारकी कविता गीएँ बतलायी हैं, उनमें चार कविताएँ अत्यन्त श्रेष्ठ, पुण्य प्रधान करने-वासी तथा पाप मट्ट करनेवासी हैं । मुख्यकविता, रत्नाल-पिङ्गला, पिङ्गलासी और पिङ्गलपिङ्गला—ये चार प्रकारकी कविताएँ श्रेष्ठ, पवित्र और पाप दूर करनेवासी हैं । इनके श्रावण और समारोहोंसे भी मनुष्यके पाप मट्ट हो जाते हैं । ये पापनाशिनी कविता गीएँ जिसके घरमें भीभूद रहती हैं, वहाँ भी, विनय और कीर्तिका नियम विवास होता है । इनके दूधमें भगवान्‌ शंकर, कृतीसे सम्पूर्ण देवता और धीसे अग्नि-देव मूल होते हैं । पिता, पितामह और प्रतितामह तो एक चार भी कविता गीके दूध आदि देनेपर करोड़ों वर्षोंतक मूल रहते हैं । कविता गीके घी, दूध, बही अथवा लीरका एक चार भी धोयिष्य ब्राह्मणोंके दान करने मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है । जो जितेन्द्रिय रहकर एक दिन-रात उपवास करके कविता गीका पञ्चगम्य पान करता है, जो चाण्डालमणसे बड़कर उत्तम फलकी प्राप्ति होती है । जो क्रोध और अत्यन्तका त्याग करके सुम्भमें चित्त लगाकर शुभ सुम्भमें कविता गीके पञ्चगम्य का आचमन करता है, उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । जो विदुषयोगमें पुण्य-पुण्य अथ पढ़कर कविताके पञ्चगम्यसे मेरी या शंकरकी प्रतिमाको स्नान कराता है, उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है । वह निष्पाप एवं शुद्धचित्त होकर भाकागमें हीमा बड़नेबाणों विभाणके द्वारा मेरे अथवा चरके लोकमें प्रगम करता है । पूर्वकालमें ब्रह्माग्निसे उत्तम वेदमणिके द्वारा अग्निपुण्यसे शुभणके समान कर्त्तव्यमयी कविता गीको उत्तम किया । उस होम-येनुकी प्रमा ब्रह्मक फली हुई थी । उसके उत्पन्न होने हो दश साहसिक देवता, सिद्ध, ब्रह्मिण, वैश, वैशान्, यज्ञ, समुद्र, तद्विद्य, पर्वत, मेघ, गन्धर्व, अक्षराएँ, धस और माग बही उपरिगत हुए । उसे देसकर सबको बड़ा विनय हुआ और सभी अनेकों प्रकारके मन्त्र पढ़कर बरदेवार उगरी लूण्ण करने सने । उस गीके तीर्थ बहुत बड़े नहीं थे, उनही तीर्थ अनेकों थीं, उनका बछड़ा उसके साथ ही था तथा वह कुण्डल्य अयुक्तको प्रकट करनेके लिये

देवता आदिने हाथ जोड़कर उस गौको प्रणाम किया और चतुर्मुख ब्रह्माजीसे कह—'भगवन् ! वताइये हम आपकी किस आत्माका किस प्रकार पालन करें ?'

देवताओंके इस प्रकार प्रश्न करनेपर ब्रह्माजीने कहा—'आपलोग भी इस दूध देनेवाली गौपर अनुग्रह कीजिये । यह होमकी सिद्धिके लिये प्रकट हुई है और अपने हृदयसे तीनों अग्नियोंको तृप्त करेगी । जब अग्निदेव स्वयं तृप्त हो जायेंगे तो आपलोगोंको भी तृप्त करेंगे । इसके दूधरूपी अमृतसे आपलोगोंके बल और पराक्रमकी वृद्धि होगी और आप इच्छा करते ही दानवाँपर विजय पा जायेंगे ।' ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर देवताओंके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और वे कपिला गौको इस प्रकार वरदान देने लगे—'देवि ! ब्रह्माजीने सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके लिये तुम्हें उत्पन्न किया है ; इसलिये तुम परम पवित्र, शुद्ध और पापका नाश करनेवाली होओ । जो मनुष्य तुम्हें देखकर नमस्कार करेंगे अथवा जो अपने हाथोंसे तुम्हारे शरीरका स्पर्श करेंगे, तुममें भक्ति रखनेवाले उन मनुष्योंका एक वर्षका किया हुआ पाप तत्क्षण नष्ट हो जायगा । जो तुम्हारा दर्शन करके तुम्हें प्रणाम करेंगे, उनके अनिच्छासे किये हुए, अनजानमें किये हुए तथा दृष्टि न पड़नेके कारण स्वतः ही जानेवाले पातक उसी प्रकार नष्ट हो जायेंगे जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार मिट जाता है ।

इस प्रकार कपिला गौको वरदान देकर देवता आदि जैसे आये थे, जैसे लौट गये और वह गौ लोगोंका उद्धार करनेके लिये सम्पूर्ण लोकोंमें विचरने लगी । उसीके शरीरसे नौ कपिलाएँ और उत्पन्न हुईं । वे सब-की-सब जगत्पर अनुग्रह करनेके लिये इस पृथ्वीपर विचरती रहती हैं, इसलिये परलोकमें हित चाहनेवाले पुरुषको कपिला गौका दान अवश्य करना चाहिये । जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मणको कपिला गौ दानमें दी जाती है, उस समय उसके सौगोंके ऊपरी भागमें विष्णु और इन्द्र निवास करते हैं । सौगोंकी जड़में चन्द्रमा और वज्रधारी इन्द्र रहते हैं । सौगोंके बीचमें ब्रह्मा तथा सलाटमें भगवान् शंकरका निवास होता है । दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, नेत्रोंमें चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोंमें मरुद्गण, जिह्वामें सरस्वती, रोमकूपोंमें मुनि, चमड़ेमें प्रजापति, श्वासीमें षडङ्ग, पद और फ्रमसहित चारों वेद, नासिकाछिद्रोंमें गन्ध और सुगन्धित पुष्प, नीचेके ओठमें वसुगण, मुखमें अग्नि, कक्षमें साध्य-देवता, गरदनमें पार्वती, पीठपर नक्षत्र, कफुद्के स्थानमें आकाश, अपानमें सब तीर्थ, मूत्रमें साक्षात् गङ्गाजी, गोवरमें लक्ष्मीजी, नासिकामें ज्येष्ठादेवी, नितम्बोंमें पितर, पूंछमें भगवती रमा, दोनों पसलियोंमें



विश्वेदेव, छातीमें शक्तिधारी कार्तिकेय, घुटनों, जंघों और ऊरुओंमें पाँच वायु, खुरोंके मध्यमें गन्धर्व और खुरोंके अग्र-भागमें सर्प निवास करते हैं । चारों समुद्र उसके चारों स्तन हैं । रति, मेघा, क्षमा, स्वाहा, श्रद्धा, शान्ति, धृति, स्मृति, कीर्ति, दीप्ति, क्रिया, कान्ति, तुरिष्टि, पुष्टि, संतति, दिशा और प्रदिशा आदि देवियाँ सदा कपिला गौका सेवन किया करती हैं । देवता, पितर, गन्धर्व, अप्सराएँ, लोक, द्यौप, समुद्र, गङ्गा आदि नदियाँ तथा अङ्गों और यज्ञोंसहित सम्पूर्ण वेद, नाना प्रकारके मन्त्रोंसे कपिला गौकी प्रसन्नता-पूर्वक स्तुति किया करते हैं । वे कहते हैं—'सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित पुण्यमयी कपिलादेवी ! तुम्हें नमस्कार है । ब्रह्माजीने तुम्हें अग्निकुण्डसे उत्पन्न किया है । तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति महान् है । समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं और तुम सबका शुभ करनेवाली हो । समस्त देवता आकाशमें खड़े होकर वारंवार कहा करते हैं—'अहो ! यह कपिला गौरूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है ! यह सब दुःखोंको दूर करनेवाला है । अहा ! यह धर्मसे उपाजित, शुद्ध, श्रेष्ठ और महान् धन है ।' कपिला गौ यदि चाहे तो भूलोकवासी सम्पूर्ण मनुष्योंको ब्रह्मलोकमें ले जा सकती है । पृथ्वी, घोड़ा, सोना, गी, चाँदी, तिल और जौ—ये पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मणको दान करनेसे दाताको महान् आनन्दकी प्राप्ति होती है ।

युधिष्ठिरने पूछा—'देवदेवेश्वर ! हव्य (यज्ञ) और कव्य (श्राद्ध) का उत्तम समय कौन-सा है ? उसमें किन ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये और किनका परित्याग ?

भगवान्ने कहा—युधिष्ठिर ! देव-कर्म (यज्ञ) पूर्वाह्नकालमें करना चाहिये और पितृ-कर्म (श्राद्ध) अपराह्नकाल में । अयोग्य समयमें किया हुआ दान राजस माना गया है । जिसके लिये लोगोंमें द्विद्वारा पीटा गया हो,

जिसमेंसे किसी असत्यवादी मनुष्यने भोजन कर लिया हो तथा जो कुत्तेसे छू गया हो, उस अन्नको राक्षसोंका भाग समझना चाहिये। पतित, जब और उन्मत्त ब्राह्मण जितने भी मिलें, उनका बेव-यत्न और पितृ-यत्नमें सत्कार नहीं करना चाहिये। नपुंसक, अङ्गहीन, कोढ़ी और राजयक्ष्मा तथा मृगीका रोगी भी श्राद्धमें आवरके योग्य नहीं माना गया है। बंध, पुजारी, मूठे नियम धारण करनेवाले (पालखी) तथा सोमरस बेचनेवाले ब्राह्मण श्राद्धमें सत्कार पानेके अधिकारी नहीं हैं। गवंधे, नाचने-झुंकेवाले, बाजा बजानेवाले, बकवादी, पहलवान, अनिहोत्र न करनेवाले, मुर्दा डोनेवाले, घोरी करनेवाले, शास्त्रविषय कर्ममें संतान रहनेवाले और अपरिवित ब्राह्मण भी श्राद्धमें सत्कार पाने-योग्य नहीं माने जाते। जो किसी समुदायके पुत्र हों अर्थात् जिनके पिताका निश्चित पता न हो तथा जो पुत्रिका-धर्मके अनुसार नानाके घरमें रहते हों, वे ब्राह्मण भी श्राद्धके अधिकारी नहीं हैं। युद्धमें लड़नेवाला, रोजगार करनेवाला तथा परा-भक्तिपूर्वक विक्रमे जीविका चलानेवाला ब्राह्मण भी श्राद्धमें सत्कार पानेका अधिकारी नहीं है।

परंतु जो ब्राह्मण व्रतका आचरण करनेवाले, गुणवान्, सब स्वाध्यायशील, गायत्री-मन्त्रके शाता और त्रिपानिष्ठ हों, वे श्राद्धमें सत्कारके योग्य माने गये हैं। श्राद्धका सबसे उत्तम काल है सुप्रात ब्राह्मणका मिलना। जिस समय भी ब्राह्मण, इही, घी, कुशा, फूल और उत्तम श्रेष्ठ प्राप्त हो जायें, उसी समय श्राद्धका दान आरम्भ कर देना चाहिये। जो ब्राह्मण सदाचारी, घोड़े-सी आजीविकापर पुजारा करनेवाले, दुर्बल, तपस्वी और भिक्षासे निर्वाह करनेवाले हों, वे यदि पाचक होकर कुछ मांगने आयें तो उन्हें दिये हुए दानका महान् फल होता है। युधिष्ठिर! इन सब बातोंको पूर्णरूपसे जानकर धनहीन और उपकार न करनेवाले वैदेवेता ब्राह्मणको दान करो। यदि तुम अपने दानको असय बताना चाहते हो तो जो दान तुम्हें मिय सगता हो तथा जिसे वैदेवेता ब्राह्मण पसंद करते हैं वही दान करो।

युधिष्ठिर! अब नरकमें जानेवाले पुरयोका वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण मूठकी रसा अथवा अपनेकी भपसे बचानेके अवसरोंको छोड़कर अय्य समयमें भी मूठ झोलते हैं, वे नरकमें जाते हैं। जो परायी स्त्रीका अपहरण करते, परस्त्रीके साथ व्यभिचार करते और दूतसोंकी तिक्तियोंको दूतसे पुरघोसे मिलाया करते हैं, वे भी नरकमें पड़ते हैं। अगुलसोर, घरमें संध सोवनेवाले (अथवा सुतहकी शर्त सोवनेवाले), पराये धनसे जीविका चलानेवाले, धर्म और आध्यात्मसे विरुद्ध आचरण करनेवाले, पालकों, पापाचारी, बेर बेचनेवाले,

बेदोंको निन्दा करनेवाले, बेदोंके निश्चयवाने तथा रस, विर और ब्रुधकी विक्री करनेवाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। जो नरायण धनके सोमसे अथवा आसक्तिपथा आश्रयकोंसे भी ब्रुध बेते हैं, पगुओंका भजन करते, उन्हें मापने और ब्रिधिया करते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं। जो सायण्य होने हुए भी धनके सोमसे दान नहीं करते, दोनों और संघोर कृपारुष्टि नहीं रखते तथा शिरकासतक अपने हाथ रहे हुए सहनशील, जिनेन्द्रिय, दुर्बल एवं ब्रुद्धिमान् मनुष्योंको भी काम निकल जानेपर त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो बच्चों, बूढ़ों तथा बड़े हुए मनुष्योंको कुछ न देकर अर्धेन ही मिठाई उड़कते हैं, उन्हें भी नरकमें गिरना पड़ता है। प्राचीनकालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी मनुष्योंका वर्णन किया है।

अब स्वर्गमें जानेवालोंका वर्णन सुनो। जो दान, तपस्या, सायणभावण और इन्द्रिय-न्ययनके द्वारा निरन्तर धर्माचरणमें सगे रहते हैं, जो उपाध्यायकी सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिपद्यमें आगतिय नहीं रखते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो मधु, मांस, मरिचको निवृत्त होकर उत्तम व्रतका पालन करते, परस्त्रीके संतानमें बंधे रहते, माता-पिताको सेवा करते, माद्योंके प्रति स्नेह रखते, भोजनके समय घरसे बाहर निवृत्तकर अतिथिसेवा करते, अतिथियोंसे प्रेम रखते और उनके लिये बर्षी अपना बरताना बंद नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो ब्रिध मनुष्योंकी बन्धाओंका धनियोंसे ब्याह करा देने अथवा स्वयं धनी होने हुए भी ब्रिधकी बन्धासे ब्याह करते हैं तथा जो यद्यपुर्वेक रस, बीज और ओषधियोंका दान करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो मांगमें निराला करनेवाले पंचिषोंको अच्छे-बुरे, मुलदायक और बुलदायक मांगका टोच-टीक परिचय दे देते हैं, तथा जो अयावस्था, पूर्णिया, चतुर्ग्री, अष्टमी—इन तिथियोंमें, दोनों संघ्याओंके समय, भारी नशत्रमें, जन्म-नशत्रमें, विद्युव योगमें और धरम नशत्रमें स्त्री-समागम से बचे रहते हैं, वे मनुष्य भी स्वर्गमें जाते हैं। राजन्! इस प्रकार हृष्य-रघ्यके विधानका समय बताना गया और स्वर्ग तथा नरकमें से जानेवाले धर्म-अधर्मोंका वर्णन किया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्! मनुष्य ब्राह्मणकी हिमा किये बिना ही ब्रह्महत्याके पापसे बंधे मिले हो जाना है, इस विषयको टोच-टीक बतानेकी कृपा कीजिये।
भगवान्ने कहा—राजन्! जो भीष्मार्हात ब्राह्मण-को स्वयं ही भिक्षा देनेके लिये ब्रह्मावर पीछे इन्कार कर जाता है, उसे ब्रह्महत्याका वर्णन है। जो कुछ ब्रुद्धिमान् पुत्र

वेदवेत्ता ब्राह्मणकी जीविका छीन लेता है, वह भी ब्रह्मघाती ही है। जो क्रोधमें मरकर किसी आश्रम, घर, गाँव अथवा नगरमें आग लगा देता है, प्याससे तड़पती हुई गौओंको पानीके निकट पहुँचनेमें बाधा डालता है तथा वैदिक श्रुतियों और ऋषिप्रणीत शास्त्रोंपर बिना समझ-बूझके दोषारोपण करता है, वह भी ब्रह्महत्याके पापका भागी होता है। जो अंधे, पङ्गु और गूंगे मनुष्यका सर्वस्व हरण कर लेता है, जो भूर्खता-वश गुरुको 'तू' कहकर पुकारता, हुङ्कारके द्वारा उनका तिरस्कार करता तथा उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके मनमाना बर्ताव करता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही कहते हैं। जो मनुष्य क्रोध या द्वेषके कारण अथवा कटुवचन या फटकार सुनकर ऋतुकालमें स्त्रीके पास नहीं जाता तथा जो दरिद्र मनुष्यका सर्वस्व छीन लेता है, वह भी ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला ही माना गया है।

युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! जो दान सब दानोंसे श्रेष्ठ माना गया हो, उसको बतलाइये तथा जिन ब्राह्मणोंका अन्न खानेयोग्य न हो, उनका परिचय दीजिये।

भगवान्ने कहा—राजन् ! ब्रह्मा आदि सभी देवता अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं, अतः अन्नके समान दान न कोई हुआ है न होगा; क्योंकि अन्न ही इस जगत्में बल देनेवाला है तथा अन्नके ही आधारपर प्राण टिके रहते हैं। अब मैं उन लोगोंका परिचय दे रहा हूँ, जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं माना गया है; ध्यान देकर सुनो। यज्ञमें दीक्षित, कर्ष्य, क्रोधी, शठ, शापग्रस्त, नपुंसक, भोजनमें भेद करनेवाले, बँध, हूत, उच्छिष्टभोजी, वर्णसंकर तथा अशौचमें पड़े हुए मनुष्यका अन्न, शूद्रकी जूठन तथा शत्रुका अन्न नहीं खाना चाहिये। इसी प्रकार पतित, चुगुलखोर, यज्ञका फल बेचनेवाले, नट, कपड़ा बुननेवाले—जुलाहे, कृतघ्न, अम्बष्ठ, निपाद, रङ्गभूमिमें नाटक खेलनेवाले, सुनार, वीणा बजाकर जीनेवाले, हथियार बेचनेवाले, सूत, शराब बेचनेवाले, धोबी, स्त्रीके वशमें रहनेवाले, क्रूर और भ्रंस चरानेवालेका अन्न भी अप्राह्य माना गया है। जिनके यहाँ भ्रणशाशुके दस दिन न बौते हों, उनका तथा वेश्याओंका अन्न नहीं खाना चाहिये। कंदी, जुआरी, छूतविद्या जाननेवाले, परिव्रित्त (विवाहित छोटे भाईके अविवाहित बड़े भाई) और परिव्रित्त (अविवाहित बड़े भाईके विवाहित छोटे भाई) का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिसकी बड़ी बहिन अविवाहित हो, उस कन्याके साथ विवाह करनेवाले ब्राह्मण तथा भाईके मर जानेपर उसकी स्त्रीका उपभोग करनेवाले पुरुष और राजाके अन्नका भी त्याग कर देना चाहिये। राजाका अन्न तेजका, शूद्रका अन्न ब्राह्मणत्वका, सुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न

सुयशका नाश करता है। किसी समूहका और वेश्याका अन्न भी निन्दित माना गया है। बँधका अन्न पीव तथा व्यभिचारिणीके पतिका अन्न वीर्यके समान माना गया है, इसलिये उसका त्याग कर देना चाहिये। जो उनका अन्न खाता है वह उनके चमड़े, रोएँ और हड्डीका ही भोजन करता है। यदि अनजानमें इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो तो तीन दिनतक उपवास करना चाहिये; किंतु जान-बूझकर एक बार भी इनका अन्न खा लेनेपर द्विजको प्राजापत्य-व्रतका आचरण करना चाहिये।

पाण्डुनन्दन ! अब मैं दानोंका यथार्थ फल बतला रहा हूँ, सुनो। जल-दान करनेवालेको तृप्ति होती है, अन्न देनेवालेको अक्षय सुख मिलता है, तिलका दान करनेवाला मनुष्य मनके अनुरूप संतान और दीप-दान करनेवाला पुरुष उत्तम नेत्र पाता है। भूमि देनेवालेको भूमि, सुवर्ण-दान करनेवालेको दीर्घ आयु, गृह देनेवालेको सुन्दर भवन और चाँदी दान करनेवालेको उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है। वस्त्र देनेवाला चन्द्रलोकमें और अश्व-दान करनेवाला अश्विनी-कुमारोंके लोकमें जाता है। गाड़ी देनेवाले बलका दान करनेवाला लक्ष्मीको पाता है और गो-दान करनेवाला पुरुष गोलोकके सुखका अनुभव करता है। सवारी और शय्या-दान करनेवाले पुरुषको स्त्रीकी तथा अमय-दान देनेवालेको ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। धान्य-दान करनेवाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है और वेद प्रदान करनेवाला पुरुष परब्रह्मका स्वरूप हो जाता है। जो सोना, पृथ्वी, गौ, अश्व, बकरा, वस्त्र, शय्या और आसन आदि वस्तुओंको सम्मानपूर्वक ग्रहण करता तथा जो दाता न्यायानुसार आदरपूर्वक दान करता है, वे दोनों ही स्वर्गमें जाते हैं; परंतु जो इसके विपरीत अनुचितरूपसे देते और लेते हैं, उन दोनोंको नरकमें गिरना पड़ता है। विद्वान् पुरुष कभी झूठ न बोलें, तपस्या करके उसपर गर्व न करें, कष्टमें पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोंका अनादर न करें तथा दान देकर उसका बखान न करें। झूठ बोलनेसे यज्ञका, गर्व करनेसे तपस्याका, ब्राह्मणके अपमानसे आयुका और अपने मुँहसे बखान करनेपर दानका नाश हो जाता है।

जीव अकेले जन्म लेता, अकेले मरता तथा अकेले ही पुण्य और पापका फल भोगता है। बन्धु-बान्धव मनुष्यके मरे हुए शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलके समान पृथ्वीपर डालकर मुँह फेरकर चल देते हैं। उस समय केवल धर्म ही जीवके पीछे-पीछे जाता है। मनुष्यका मन अविद्यके कर्मोंका हिसाब लगाया करता है, किंतु काल, उसके नाशवान् शरीरको लक्ष्य करके मुसकराता रहता है; इसलिये धर्मकी ही

सहायक मानकर सदा उसीके संग्रहमें लगे रहना चाहिये; क्योंकि धर्मको सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता है। जिन्होंने अधिक जलसे भरे हुए अनेकों सरोवर, धर्म-

शासारें, बुएँ और सुन्दर पीतने बनवाये हैं तथा जो सदा अन्नका वान करते और भीठी बानी बीजते हैं, उनपर यमराजका जोर नहीं चलता।

धर्म और शौचके लक्षण, संन्यासी और अतिथिके सत्कारका उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्न-दानकी प्रशंसा

युधिष्ठिरने पूछा—जनादेन ! मनोयी पुण्य धर्मको अनेकों प्रकारका और बहुतसे द्वारवाला बतसाते हैं। यास्तवमें उसका लक्षण क्या है, यह बतानेकी कृपा करें।

भगवान्ने कहा—राजन् ! तुम धर्म और शौचकी विधिका कम संशेषते सुनो। अहिंसा, शौच, क्रोधका अभाव, क्रूरताका अभाव, दम, शम और सरलता—ये धर्मके निश्चित लक्षण हैं। बह्मवर्ष, तपस्या, क्षमा, मधु-मांसका त्याग, धर्ममर्यादाके भीतर रहना और मनको धरामें रखना—ये सब शौच (पवित्रता) के लक्षण हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह बचपनमें विद्याध्ययन करे, मुद्यावस्था होनेपर स्त्रीके साथ विवाह करे और बुढ़ापेमें मृनिवृत्तिका आश्रय से; किन्तु धर्मका आचरण सदा ही सब अवस्थाओंमें करता रहे। ब्राह्मणका अपमान न करे, गुरुजनोंकी निन्दा न करे और संन्यासी-सहायताओंके अनुकूल बर्ताव करे—यह सनातनधर्म है। संन्यासी ब्राह्मणोंका मुख है, ब्राह्मण धारों धर्मोंका मुख है, पति अपनी स्त्रीका मुख है और राजा सबका मुख है। यदि संन्यासी गृहस्थके घर एक रात भी वृहत् जाय तो वह उसके द्वारा जान-भूमकर या अनजानमें किये हुए समस्त पापोंको भस्म कर डालता है। संन्यासी एक बण्ड धारण करनेवाला हो या तीन बण्ड, बड़ी-बड़ी जटाएँ रखता हो या माया मुंडियाँ पहनाता हो अथवा गेहडा वस्त्र पहननेवाला हो, उसको पूजा ही करनी चाहिये। यदि गृहस्थ पुरंद संन्यासी और अतिथिकी पूजा नहीं करते अथवा उनका अपमान करते हैं तो वे उन गृहस्थोंको भरकमे डालते हैं। इसलिये जो परलोकमें अपना कल्याण चाहते हों, उन पुरुषोंको उचित है कि वे मृत्युमें समस्त धर्मोंको अर्पण करनेवामें मेरे शरणगत भक्तोंकी धत्तपूर्वक पूजा करें। ब्राह्मणोंपर हाथ न छोड़े, गायको कभी न मारे; जो इन दोनोंपर अज्ञान करता है, उसे घृणहृत्पाके समान पाप लगता है। अग्निमें मूँहते न फूँके, पेटोंको आगपर न तपावे और आगको नरते न कुचले तथा पीठकी ओरसे अग्निका सेवन न करे। जो जगह आग जलती हो तो उसके बीचसे न निकले। अग्निमें

कोई अपवित्र वस्तु न डाले। उचितत बरबाये तथा घृतकमें भी कभी अग्निका स्पर्श न करे। अग्नि सार्विकनाशक है, अतः शुद्ध होकर उसका स्पर्श करना चाहिये। भल वा मूत्रकी हाजत होनेपर बुद्धिमान पुरुषको अग्निका स्पर्श नहीं करना चाहिये; क्योंकि जबतक वह मल-मूत्रका बैग धारण करता है तबतक अशुद्ध रहता है। भोजन बनानेके लिये दूसरेके घरसे कभी आग नहीं लानी चाहिये; क्योंकि उस आगसे तैयार हुए अन्नके द्वारा मनुष्य जो कुछ भी शुभकर्म करता है, उसके पुण्यका आधा भाग उस भाग देनेवालेको ही मिलता है। इसलिये अपने घरकी आग कभी बुझने नहीं देने चाहिये। यदि असावधानीसे अथवा अनजानमें घरकी आग शान्त हो जाय तो पुनः अरघो काष्ठका मण्डन करके अग्नि प्रकट करनी चाहिये। अथवा किसी श्रेष्ठिय ब्राह्मणके घरसे माँग लानी चाहिये।

युधिष्ठिरने पूछा—जनादेन ! जिनको वान देनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है, वे साधु ब्राह्मण कितने होते हैं ?

भगवान्ने कहा—राजन् ! जो शौच न करनेवाले, सत्यवादी, सदा धर्ममें लगे रहनेवाले और अतिथिय हों, वे ही साधु ब्राह्मण हैं तथा उम्होको वान देनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है। जो अमिमानगुण्य, सब कुछ सहनेवाले, शास्त्रोंय अर्थके ज्ञाता, इन्द्रियजयी, सामुंम प्राणिके हितकारी, सबके साथ मैत्रीका भाव रखनेवाले, निर्लोभ, पवित्र, विद्वान्, संतोषी, सत्यवादी और स्वधर्मराज्य हों, उनको विद्या कृपा वान महान् फलकी प्राप्ति करनेवाला होता है। जो प्रतिबिन् अद्भुतगित धारों बेचैरिवा स्वध्यान करता हो और जिसके उदरमें गुरुका अन्न न पड़ा हो, उनको अतिथिने शानका उत्तम पात्र माना है। युधिष्ठिर ! यदि शुद्ध बुद्धि, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार और उत्तम गौमसे पुण्य एक ब्राह्मण को वान प्रदत्त कर से तो वह वानके समस्त फलका उद्धार कर देता है। ऐसे ब्राह्मणको पाप, धोखा, भ्रम और धन देना चाहिये। सन्मुखोंद्वारा सम्मानन किमी दुष्-

यान् ब्राह्मणका नाम सुनकर उसे दूरसे भी बुलाना और प्रयत्नपूर्वक उसका सत्कार तथा पूजन करना चाहिये।

युधिष्ठिरने कहा—देवेयवर ! धर्म और अधर्मकी इस विधिफा भीष्मजीने विस्तारके साथ वर्णन किया था। आप उनके बचनोंमेंसे सारभूत धर्म छोटकर बतलाइये।

भगवान्‌ने कहा—राजन् ! समस्त चराचर जगत्‌ अपने ही आधारपर टिका हुआ है। अन्नसे प्राणकी उत्पत्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष है; अतः अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको वेण और कालका विचार करके भिक्षुको अवश्य अन्न दान करना चाहिये। ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ा, यदि वह रास्तेफा थका-माँका घरपर आ जाय तो गृहस्थ पुरुषको बड़ी प्रसन्नताके साथ मुस्करी भाँति उसकी पूजा करनी चाहिये। परलोकमें कल्याणकी प्राप्तिके लिये अपने प्रकट हुए श्रेष्ठको भी रोककर, मत्सररताका त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नतापूर्वक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये। गृहस्थ पुरुष की अतिथिफा अनावर न करे उससे मूढी बात न करे तथा उसके गोत्र, शाखा और अध्ययनके विषयमें भी कभी प्रश्न न करे। भोजनके समयपर चाण्डाल या श्वपाक (महाचाण्डाल) भी घर आ जाय तो परलोकमें हित चाहनेवाले गृहस्थको अन्नके द्वारा उसका सत्कार करना चाहिये। जो (किसी भिक्षुके भयसे) अपने घरफा बरवाजा बंद करके सुभी-सुभी भोजन करता है, उसने मानो अपने लिये स्वर्गका बरवाजा बंद कर दिया है। जो वेदताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों और निराश्रय मनुष्योंको अन्नसे तृप्त करता है उसको महान्‌ पुण्यफलकी प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवनमें बहुत-से पाप किये हों, वह भी यदि याचक ब्राह्मणको विशेषरूपसे अन्न-दान करता है तो सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। संसारमें अन्न देनेवाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है और जो प्राणदाता है, वही सब कुछ देनेवाला है। अतः कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अन्नका दान विशेषरूपसे करना चाहिये। अन्नको अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजाकी जन्म देनेवाला माना गया है। अन्नके नाम होनेपर शरीरके पर्चों धातुओंका नाम हो जाता है। चलवान्‌ पुरुष भी यदि अन्नका त्याग कर दे तो उसका चल नष्ट हो जाता है। इसलिये



अन्नसे हो या अन्नद्वारा, अधिक चेष्टा करके अन्न-दान देना चाहिये। सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्वीका सारा रस खींचते हैं और हवा उसे लेकर वादलोंमें स्थापित कर देती है। वादलोंमें पड़े हुए उस रसको इन्द्र पुनः इस पृथ्वीपर बरसाते हैं, उससे आप्लावित होकर पृथ्वी तृप्त होती है और उसमेंसे अन्नके बीधे उगते हैं, जिनसे सम्पूर्ण प्रजाका जीवन-निर्वाह होता है। इस प्रकार सूर्य, वायु, मेघ और इन्द्र—वे एक ही समुदायके अन्तर्गत हैं, जिनसे सम्पूर्ण भूतोंका प्रातुर्भाव हुआ है। आकाशमें इन महात्माओंके अनेकों दिव्य भवन हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे बने हुए और पृथक्-पृथक् भूमिपर स्थित हैं। उनमेंसे किसीका चन्द्रमण्डलके समान श्वेत रंग है और किसीका उदयकालीन सूर्यके समान लाल। उन लोकोंमें स्थावर और जड़म सभी तरहके प्राणी निवास करते हैं। अन्नदाताओंको वे ही लोक प्राप्त होते हैं, इसलिये सब अन्न-दान करते रहना चाहिये।

भोजनकी विधि, गोओंको घास डालनेका विधान और माहात्म्य तथा ब्राह्मणके लिये तिल और गन्ना पेरनेका निषेध

युधिष्ठिरने कहा—मधुमुदन ! अन्न-दानका फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, अब आप भोजनकी विधि बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान्‌ने कहा—पाण्डुनन्दन ! द्विजातियोंके भोजनका जो विधान है, उसे सुनो । श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि यह स्नान करके पवित्र हो शुद्ध और एकान्त स्थानमें बैठकर अग्निमें होम करे । फिर ब्राह्मण हो तो चौकोना, दात्रिय हो तो गोलाकार और वैश्य हो तो अर्धचन्द्राकार मण्डल बनावे । उसके बाद घेर घोरकर उसी मण्डलमें बिछे हुए शुद्ध आसनके ऊपर पूर्वामुमुख होकर बैठ जाय और दोनों पैरोंसे अथवा एक पैरके द्वारा पृथ्वीका स्पर्श किये रहे । एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीरको कपड़ोंसे ढककर भी भोजन न करे । इसी प्रकार फटे हुए बर्तनमें तथा जल्दी पततमें भी भोजन करना निषिद्ध है । भोजन करनेवाले पुरुषको प्रसन्नचित्त होकर पहले अन्नको नमस्कार करना चाहिये । अन्नके सिवा दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिये तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्नकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । भोजन आरम्भ करनेसे पहले हाथमें जल लेकर उसके द्वारा अन्नकी प्रदक्षिणा करे, फिर मन्त्र पढ़कर मूयक्-मूयक् पाँचों प्राणोंको अन्नकी आहूति दे । अन्न, अन्नद और पाँचों प्राणोंके तत्त्वको जानकर जो प्राणानिहोत्र करता है, उसके द्वारा पञ्चवायुओंका यजन हो जाता है । प्राणोंको आहूति देनेके पश्चात् अपने मुखमें पड़नेलायक एक-एक घास अन्न उठाकर भोजन करे । यदि एक घासका अन्न मुखमें जानेके बाद बच रहे तो वह अपना जूटा कहलाता है । घाससे बचे हुए तथा मुंहसे निकले हुए अन्नको अत्पाद्य सम्भे और उसे छा लेनेपर चाण्डायण-व्रतका आचरण करे । जो अपना जूटा छाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजनको फिर ग्रहण करता है उसको चाण्डायण, कृच्छ्र अथवा प्राजापत्य-व्रतका आचरण करना चाहिये । जो स्त्रीके भोजन किये हुए पात्रमें भोजन करता है, स्त्रीका जूटा छाता है तथा स्त्रीके साथ एक बर्तन में भोजन करता है, वह पानी पवित्रा पान करता है । तत्त्वदर्शी मुनियोंने उस पापसे छूटनेका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं देला है । यदि पानी पीते-पीते उसकी बूँद मुंहसे निकलकर भोजनमें गिर पड़े तो वह पानेयोग्य नहीं रह जाता । जो उसे छा संता है, उस पुरुषकी चाण्डायण-व्रतका आचरण करना चाहिये । इसी प्रकार

पीनेसे बचा हुआ पानी भी पुनः पीनेके योग्य नहीं रहता । यदि कोई ब्राह्मण मोहवाया उसको पी ले तो उसे चाण्डायण-व्रतका आचरण करना चाहिये । ब्राह्मणकी उक्ति है कि वह भोजन होकर मूष्मी या विनाओंकी ओर न बहेते हुए विद्वि-वत् भोजन करे, किसीको अपना जूटा न दे, बम्बी भी बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन न करे । प्रतिदिन जना ही अन्न खाए, जिससे अपनेको बष्ट न हो । भोजन करते समय यदि रजस्वला स्त्री, चाण्डाल, कुत्ता अथवा घृमर बीस जाय तो अन्नको त्याग देना चाहिये । जो मोहवाया उस अन्नका त्याग नहीं करता, वह द्विज चाण्डायण-व्रतका अर्थकारो है । जिस भोजनमें बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो, त्रिणे सुरति फूँककर उड़ा किया गया हो, उसको अत्पाद्य समझना चाहिये; ऐसे अन्नको भोजन कर लेनेपर चाण्डायण-व्रतका आचरण आवश्यक हो जाता है । भोजनके स्थानसे उठ जानेके बाद जिसे फिर छू दिया गया हो, जो पैरसे छू गया या सौंप दिया गया हो, वह राक्षसके साने योग्य अन्न है—ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना चाहिये । राक्षसके उच्छिद्य भागकी ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण अपनी सात पीढ़ी पहरोंके पितरों और शाल पीड़ितक आनेवासी संतानोंकी घोर शीघ्र मरणमें गिरता है । भोजन समाप्त होनेपर, जिसमें भोजन किया हो उस पात्रमें आचमन करना चाहिये । यदि आचमन किये बिना ही भोजन करनेवाला द्विज भोजनके आसनसे उठ जाय तो उसे सुरत स्नान करना चाहिये, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है ।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! गोओंके भागे घासकी मुट्ठी डालनेका विधान और माहात्म्य क्या है, तथा पन्नसे चन्द्रमाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है—यह बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान्‌ने कहा—राजन् ! बंसेको जगन्नाथ पिता समझता चाहिये और गौर संसारको मातृण है; उनकी पूजा करनेसे सम्पूर्ण पितरों और देवताओंकी पूजा हो जाती है । जिनके गोबरसे सोमनेत्र सप्त-धन्व, यामले, धर और देवमन्दिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उनसे बड़कर और कौन प्राणी हो सकता है ? जो मनुष्य एक सावतक स्वयं भोजन करनेके पहले प्रतिदिन दूसरेकी गायको मुट्ठी भर धान खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौकी सेवा करनेका

फल प्राप्त होता है। (गोकै आगे घासकी मुट्ठी डालनेका विधान इस प्रकार है—) गोमाताके सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिये—‘संसारकी समस्त गौएँ मेरी माताएँ और सम्पूर्ण वृषभ मेरे पिता हैं। गोमाताओ! मैंने तुम्हारी सेवामें यह घासकी मुट्ठी अर्पण की है, इसे स्वीकार करो।’* यह मन्त्र पढ़कर अथवा गायत्रीका उच्चारण करके एकाग्रचित्तसे घासको अभिमन्त्रित करके गौको खिला दे; ऐसा करनेसे जिस पुण्यफलकी प्राप्ति होती है, उसे सुनो। उस पुरुषने जान-बूझकर या अनजानमें जो-जो पाप किये होते हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं तथा उसको कभी बुरे स्वप्न नहीं दिखायी देते। तिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं, भगवान् नारायणसे उनकी उत्पत्ति हुई है; इसलिये श्राद्धमें तिलकी बड़ी प्रशंसा की गयी है और तिलका दान अत्यन्त उत्तम दान बताया गया है। तिल दान करे, तिल

भक्षण करे और सबेरे तिलका उबटन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने मुंहसे ‘तिल-तिल’ का उच्चारण किया करे; क्योंकि तिल सब पापोंको नष्ट करनेवाले होते हैं। द्विजातियोंको तिल खरीदकर या दानमें लेकर बेचना नहीं चाहिये। जो तिलोंका भोजन करने, उबटन लगाने और दान देनेके अतिरिक्त और किसी काममें उपयोग करता है, वह कीड़ा होकर अपने पितरोंके साथ कुत्तेकी विष्ठामें डूबता है। ब्राह्मणको स्वयं तिल पेरनेकी मशीनमें तिल डालकर तेल नहीं पेरना चाहिये। जो मोहवश स्वयं ही तिल पेरता है, वह रौरव नरकमें पड़ता है। चन्द्रमा इक्षु (गन्ने) के वंशमें उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण चन्द्रमाके वंशमें उत्पन्न हुए हैं, इसलिये ब्राह्मणको कोल्हूमें गन्ना नहीं पेरना चाहिये। यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता है तो उसे एक-एक गन्नेके लिये एक-एक ब्रह्महत्याका दोष लगता है।

आपद्धर्म, श्रेष्ठ और निन्द्य ब्राह्मण, श्राद्धका उत्तम काल और मानव-धर्म-सारका वर्णन

युधिष्ठिरने कहा—भगवन्! आपकी कृपासे मैंने सब धर्मोंका संग्रह सुन लिया तथा यह भी मालूम हो गया कि कौन-सा अन्न भोजनके योग्य है और कौन नहीं है। अब कृपा करके आपद्धर्मका वर्णन कीजिये।

भगवान्ने कहा—राजन्! जब देशमें अकाल पड़ा हो, राष्ट्रके ऊपर कोई आपत्ति आयी हो, जन्म या मृत्युका सूतक हो तथा कड़ी धूपमें रास्ता चलना पड़ा हो और इन सब कारणोंसे नियमका निर्वाह न हो सके तथा दूरका मार्ग तै करनेके कारण विशेष थकावट आ गयी हो, उस अवस्थामें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके न मिलनेपर शूद्रसे भी जीवन-निर्वाहके लिये थोड़ा-सा कच्चा अन्न (सीघा) लिया जा सकता है। रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि भोजन-सम्बन्धी नियमका पालन न कर सके तो भी उसे प्रायश्चित्त नहीं लगता। जल, मूल, घी, दूध, हवि, ब्राह्मणकी इच्छा पूर्ण करना, गुरुकी आज्ञाका पालन और ओषधि—इन आठोंके सेवनासे व्रतका भंग नहीं होता। जो मनुष्य विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करनेमें असमर्थ हो, वह विद्वानोंके वचनसे तथा दानके द्वारा भी शुद्ध हो सकता है। परदेशमें रहनेवाला पुरुष यदि कुछ कालके लिये घर आवे तो वह ऋतुकालमें तथा उससे भिन्न समयमें भी, रातमें तथा दिनमें भी अपनी स्त्रियोंके साथ समागम करनेपर प्रायश्चित्तका भागी नहीं होता।

युधिष्ठिरने पूछा—देवेश्वर! कैसे ब्राह्मण प्रशंसाके योग्य होते हैं और कैसे निन्दाके योग्य तथा अष्टका-श्राद्धका कौन-सा समय है—यह मुझे बताइये।

भगवान्ने कहा—राजन्! उत्तम कुलमें उत्पन्न, शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाले, विद्वान्, दयालु, श्रीसम्पन्न, सरल और सत्यवादी—ये सभी ब्राह्मण सुपात्र (प्रशंसाके योग्य) माने जाते हैं। ये आगोंके आसनपर बैठकर सबसे पहले भोजन करनेके अधिकारी हैं तथा उस पवित्रमें जितने लोग बैठे होते हैं, उन सबको ये अपने दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे शरणागत भक्त हों, उन्हें पड़वितपावन समझो। वे विशेषरूपसे पूजा करनेके योग्य हैं। अब निन्दाके योग्य ब्राह्मणोंका वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण संसारमें कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे वेदोंके पारगामी विद्वान् होनेपर भी पापाचारी ही माने जाते हैं। जो अग्निहोत्र और स्वाध्याय न करता हो, सदा दान लेनेकी ही रुचि रखता हो और जहाँ कहीं भी भोजन कर लेता हो, उसको ब्राह्मण जातिका कलंक समझना चाहिये। जिसका शरीर मरणाशीचका अन्न खाकर मोटा हुआ हो, जो शूद्रका अन्न भोजन करता हो और शूद्रके ही अन्नके रससे पुष्ट हुआ हो, वह ब्राह्मण प्रतिदिन स्वाध्याय, जप और होम करनेपर भी उत्तम गतिको नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेपर भी शूद्रके अन्नसे बचा न रहता हो, उसके आत्मा, वेदाध्ययन और तीनों अग्नि—इन पाँचोंका

*गावो मे मातरः सर्वाः पितरश्चैव गोवृषाः ।

श्रासमुष्टिं भया दत्तं प्रतिगृहीत मातरः ॥

तारा हो जाता है। शूद्रको तोया करनेवाले ब्राह्मणकी स्त्रियोंके लिये जमीनपर ही अन्न खान देना चाहिये; क्योंकि यह कुत्ते और गीदड़के ही समान होता है। जो ब्राह्मण मूर्खतापरा भरे हुए शूद्रके शवके पीछे-पीछे श्मशानभूमिमें जाता है, उसको तीन रातका अशौच लगता है। तीन रात पूर्ण होनेपर यदि किसी समुद्रमें मिसनेवाली नदीके भीतर स्नान करके सी धार प्राणायाम करे और धी धी पाये तो वह शुद्ध होता है। जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्मणके शवको श्मशानमें से बाते हैं, उन्हें पग-पगपर अश्वमेधयज्ञका कल मिलता है तथा वे जाममें स्नान करनेमात्रसे तत्काल शुद्ध हो जाते हैं। नियुक्तिमार्ग-परायण ब्राह्मणको शूद्रके घरमें दूध या बही भी नहीं पाना चाहिये। उसे भी शूद्रान्न ही समझना चाहिये। अत्यन्त मूखे होनेके कारण अन्नकी इच्छावाले ब्राह्मणोंके भोजनमें जो मनुष्य विघ्न डालता है, उससे बढ़कर पापी ब्रह्मरा कोई नहीं है।

राजन् ! यदि ब्राह्मण शोस और सदाचारसे रहित हो जाय तो छहों अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेद, सांख्य, पुराण और उत्तम कुलका जन्म—ये सब मिलकर भी उसे सद्गति नहीं दे सकते। प्रहणके समय, विधुष योगमें, अन्न सम्राट होनेपर, पितृ-कर्म (धाढ आदि) में, मया-नशवमें, अपने यहाँ पुत्रका जन्म होनेपर तथा ग्याममें पिण्डदान करते समय जो षोडश-सा भी बान दिया जाता है, वह एक हजार ध्येय-मुद्राके दान देनेके समान होता है। वंशास मासकी शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्लपक्षाकी नवमी, भाद्रपद मासकी कृष्णा त्रयोदशी, माघकी अमावास्या, चन्द्रमा और सूर्यका प्रहण तथा उत्तरायण और बलिपानके प्रारम्भिक दिन—ये धाढके उत्तम काल हैं। इन दिनोंमें मनुष्य पवित्रपिपत होकर यदि पितरोंके लिये तिलमिधित अतका भी बान करे तो उसके द्वारा एक हजार चर्षतक धाढ करनेकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। यह रहस्य स्वयं पितरोंका इच्छासे एक पशुवितमें बँडे हुए लोगोको भोजन-मरतोलेमें देव करता है उसे विद्वान् पुष्य कूर, बुराकारी, अजितात्मा और बह्महृदयारा बतलाते हैं। जिनके पास धनका भंडार भरता हुआ है और जो परलोके विषयमें कुछ भी न जाननेके कारण सदा मोग-विस्तारमें ही रम रहे हैं, वे केवास वैहिक सुखमें ही आरागत हैं; उनके लिये इस शोकका ही सुख सुलभ है। पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नतोष नहीं होता। जो विषयोंकी आराधितसे मुक्त होकर तपस्यामें संलग्न रहते, जित्य स्वाध्याय करते, इन्द्रियोंको धाममें रखते और समस्त

भी गुण गुणम है और परलोका भी। वस्तु जो क्षुभं न विद्या पश्यते हैं, न तप करते हैं, न बान देते और न भ्रम गुण-भोगोंका ही अनुभव कर पाते हैं, उनके लिये न इस लोकमें गुण है न परलोकायें।

मुधिष्ठिरने कहा—मगवन् ! अगर शास्त्रात् शास्त्रान्, पुरातन ईश्वर और सम्पूर्ण जगत्के निवासायमान हैं। आशरी नमस्तकार है। अब मैं सम्पूर्ण धर्मोंका सार धर्मण बनना चाहता हूँ।

मगवान्ने कहा—मराप्रान ! मनुष्यों जो धर्मके धारनत्तका धर्मन किया है, वह पुराणोंके अनुकूल और बेरके द्वारा समर्पित है। उतांता में वर्णन करता हूँ, सुनो। अग्निहोत्रो विज, कृषिता गौ, धत करदेवामा पुरव, रादा, शंयाली और महासागर—ये इतानमात्रसे मनुष्योंके पवित्र कर देते हैं, इसलिये सदा इनका वान करना चाहिये। एक गौ एकको हो वानमें देनी चाहिये, बटुनोंको नही (बटुनोंके देनेपर वे उस गौके बेखरकर आनसमें उसकी बीजन बँट लेते हैं)। यदि वह गौ बेव हो गयी तो वह बानाकी मान पौर्यियोंके परम कर देती है। एक गौ, एक बन्ध, एक शय्या और एक स्त्रीको कभी अनेक मनुष्योंके अतिप्रारमे नहीं देना चाहिये; क्योंकि बेगा करनेपर उस रातका वान बानाकी नही मिलता। यदि ब्राह्मण और गौ अनाथ मनुष्योंके घरमें व्यव जाकर आहार ग्रहण करते तो उन इनादोंके मनुष्य यज्ञसे भी बढ़कर पुण्य होता है। जो ब्राह्मणको और गौके आहार देते समय किसीको 'मन दो' कहकर मना करता है, वह ही बान पशु-वक्षियोंके योगिने जन्म लेकर प्रलयमें चान्द्रास होता है। ब्राह्मणका, देवताका, रजिदका और मुद्रका धन यदि नृग लिया जाय तो वह स्वर्गात्मिकाका भी लोके निरा देता है। जो धर्मका नरव जानता काज्य है उनके लिये वेद पुरव प्रमाण हैं धर्मशास्त्र दुर्गा प्रमाण है और लोकाचार तोमरा प्रमाण है। पूर्वसमुद्र मेंक पवित्रम समुद्रतक और हिमालय तथा विन्ध्याचलक मासका जो देश है, उसे आर्याधर्म बहने है। मरुवनी और बण्डना इन दोनों देवनदियोंके बीचका जो देवताआडवा है, हुआ देश है, उसे ब्रह्मधर्म बहने है। जिहा देशम पाया गया तथा उसके अवात्तर मंडाका जो आचार प्रवणनपाती यथा जाता है, वही उनके लिये सदाचार ब्रह्मधर्म है। बुधधर्म मरुधर्म, पञ्चाल और मरुधर्म—ये ब्रह्मविषयोंके देश हैं और ब्रह्मायणके समीप हैं। इन देशमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंके पास ब्रह्म धर्मब्रह्मके सम्पूर्ण मनुष्योंके अपने अपने आचारको गिना लेनी चाहिये। हिमालय और विन्ध्याचलके योगिने बृहधर्मसे पर्व और प्रयागसे पवित्रधर्मका जो देश है वह मरुधर्मके कल्हाता

है। जिस देशमें कृष्णसारनामक मृग स्वभावतः विचरा करता है, वही यज्ञके लिये उपयोगी देश है; उससे भिन्न म्लेच्छोंका देश है। इन देशोंका परिचय प्राप्त करके द्विजातियोंको इन्हींमें निवास करना चाहिये; किंतु शूद्र जीविका न मिलनेपर निर्वाहके लिये किसी भी देशमें निवास कर सकता है। सदाचार, अहिंसा, सत्य, शक्तिके अनुसार दान तथा धर्म और नियमोंका पालन—ये मुख्य धर्म हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टि-पर्यन्त सब संस्कार वेदोक्त विधियों और मन्त्रोंके अनुसार कराना चाहिये; क्योंकि संस्कार इहलोक और परलोकमें भी पवित्र करनेवाला है। गर्भाधान-संस्कारमें किये जानेवाले हवनके द्वारा और जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, वेदाध्ययन, वेदोक्त व्रतोंके पालन, स्नातकके पालनेयोग्य व्रत, विवाह, पञ्चमहायज्ञोंके अनुष्ठान तथा अन्याय यज्ञोंके द्वारा इस शरीरको परब्रह्मकी प्राप्तिके योग्य बनाया जाता है। जिससे न धर्मका लाभ होता हो न अर्थका तथा विद्या-प्राप्तिके अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो, उस शिष्यको विद्या नहीं पढ़ानी चाहिये, ठीक उसी तरह जैसे ऊसर खेतमें उत्तम बीज नहीं बोया जाता। जिस पुरुषसे लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उस गुरुको पहले प्रणाम करना चाहिये। अपने दाहिने हाथसे गुरुका दाहिना चरण और बायें हाथसे उनका बायाँ चरण पकड़कर प्रणाम करना

चाहिये। गुरुको एक हाथसे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिये। जो गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिवत् करता और वेद पढ़ाता है, वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है। जो उपनयन-संस्कार करके कल्प और रहस्योंसहित वेदोंका नित्य अध्ययन करता है, उसे उपाध्याय कहते हैं। जो पङ्कजयुक्त वेदोंको पढ़ाकर वैदिक व्रतोंकी शिक्षा देता और मन्त्रार्थोंकी व्याख्या करता है, वह आचार्य कहलाता है। गौरवमें इस उपाध्यायसे बढ़कर एक आचार्य, सौ आचार्योंसे बढ़कर पिता और सौ पितासे भी बढ़कर माता हैं; किंतु जो ज्ञान देनेवाले गुरु हैं, वे इन सबकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। गुरुसे बढ़कर न कोई हुआ, न होगा; इसलिये मनुष्यको उपर्युक्त गुरुजनोंके अधीन रहकर उनकी सेवा-शुश्रूषामें लगे रहना चाहिये। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुजनोंके अपमानसे नरकमें गिरना पड़ता है। जो लोग किसी अङ्गसे हीन हों, जिनका कोई अङ्ग अधिक हो, जो विद्यासे हीन, अवस्थाके बूढ़े, रूप और धनसे रहित तथा जातिसे भी नीच हों, उनपर आक्षेप नहीं करना चाहिये; क्योंकि आक्षेप करनेवाले मनुष्यका पुण्य, जिसका आक्षेप किया जाता है, उसके पास चला जाता है और उसका पाप आक्षेप करनेवालेके पास चला जाता है। नास्तिकता, वेद और देवताओंकी निन्दा, द्वेष, दम्न, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता—इनका परित्याग कर देना चाहिये।

अग्निके स्वरूप, अग्निहोत्रकी विधि तथा उसके माहात्म्यका वर्णन

युधिष्ठिरने पूछा—देवदेवेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंको किस प्रकार हवन करना चाहिये ? अग्निके कितने भेद हैं ? उनके पृथक्-पृथक् स्वरूप क्या हैं ? किस अग्निका कहां स्थान है ? अग्निहोत्रो पुरुष किस अग्निमें हवन करके किस लोकको प्राप्त होता है ? पूर्वकालमें अग्निहोत्रका निमित्त क्या था। देवताओंके लिये किस प्रकार हवन किया जाता है और कैसे उनकी तृप्ति होती है ? अग्निहोत्रोको किस गतिकी प्राप्ति होती है ? यदि तीनों अग्नियोंके स्वरूपको न जानकर उनमें अविधिपूर्वक हवन किया जाय अथवा उनकी उपासनामें त्रुटि रह जाय तो वे त्रिविध अग्नि अग्निहोत्रोका क्या अनिष्ट करते हैं ? तथा जिसने अग्निका परित्याग कर दिया हो, वह पापात्मा किस योनिमें जन्म लेता है ? ये सारी बातें संक्षेपमें मुझे सुनाइये; क्योंकि मैं भवित-भावसे आपकी शरणमें आया हूँ। भगवन् ! आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान् हैं; अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ।

भगवान्ने कहा—राजन् ! इस महान् पुण्यदायक और परम धर्मरूपी अमृतका वर्णन सुनो—यह धर्मपरायण अग्निहोत्रो ब्राह्मणोंको भवसागरसे पार कर देता है। मैंने सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मात्मसे सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि की और लोगोंकी भलाईके लिये अपने मुखसे सर्वप्रथम अग्निको प्रकट किया। इस प्रकार अग्निदेव मेरे द्वारा सब भूतोंके आगे उत्पन्न हुआ है, इसलिये पुराणोंके ज्ञाता मनीषी विद्वान् उसे अग्नि कहते हैं। समस्त कार्योंमें सबसे आगे प्रज्वलित आगमें ही आहुति दी जाती है, इसलिये इसका नाम अग्नि है। यह भलोभांति पूजित होनेपर ब्राह्मणोंको अप्रथ गति (परमपद) की प्राप्ति कराता है, इसलिये भी देवताओंमें अग्निके नामसे विख्यात है। यदि इसमें विधिका उल्लङ्घन करके हवन किया जाय तो यह एक क्षणमें ही यजमानको खा जानेकी शक्ति रखता है, इसलिये अग्निको ऋग्वेद कहा गया है। यह अग्नि सम्पूर्ण भूतोंका स्वरूप और देवताओंका

है। अन्न पचानेके कारण इसे पचन करते हैं। इसकी आसना होती है, इसलिये यह औषासन कहा गया है। 'द्रुति' शब्दसे साधका बोध होता है; उस सर्वस्वरूप आहुतिमें नमका आवश्यक—निवास है, अतः ब्रह्मवादी पुरुषोंने उसे 'वसत्यम्' मतलाया है। जिस ब्राह्मणके यहाँ धर्मके अनुसार स्वमहात्म्यसौका अनुष्ठान होता है, वह चन्द्रमण्डलके मध्यम कर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त होता है। इन्द्रियों और मन-न्द्रियपर अन्न रखनेवाले सिद्ध सत्त्वगिण अग्निकी आराधनामें तत्पर होनेके कारण ही वेवताओंके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं। दूसरे द्वान् आवसत्य अग्निकी ही पचनानि कहते हैं; क्योंकि तीमें पञ्चमहायज्ञोंकी विराति है। स्वातोपाक तथा गृह्यकर्म व इसीमें प्रतिष्ठित हैं। गृह्यकर्मका आधार होनेके कारण वे गृह्यति भी कहते हैं। कुछ ब्रह्मवेत्ताओंके मतमें औपासन, तवसत्य, सत्य और पचन नामक अग्नि भी यही है। ऐता भेरा भी मत है।

रात्रन् । अब एकाग्रचित होकर अग्निहोत्रका प्रकार ज्ञेय । गुणके अनुसार नाम धारण करनेवाले जो त्रिविध अग्नि हैं, उनके सम्बन्धमें यहाँ कुछ बातें बतायी जाती हैं। गृह्यका आधिपत्य ही गृहपत्य माना गया है। यह गृहपत्य जिस अग्निमें प्रतिष्ठित है, वही गार्हपत्य अग्निके नामसे प्रतिष्ठित है। जो अग्नि यजमानको दक्षिण मार्गसे स्वर्गमें ले जाता है, उसे ब्राह्मणलोग दक्षिणाग्नि कहते हैं। 'आहुति' शब्द साधका धाधक है और हवन नाम है हव्यका। सब प्रकारके हव्यको स्वीकार करनेवाला बह्नि आहवनीय अग्नि कहालाता है। जिस आवश्यक नामक मूल अग्निमें ब्राह्मण विधिपूर्वक हवन करता है, उसीको पचनानि भी कहते हैं। उन अग्निर्षोकी समामें स्थित रहनेवाला एक और अग्नि है, जो सत्य कहालाता है। आवश्यक नामवाला जो प्रथम अग्नि है, वह प्रजापतिका स्वरूप है। गार्हपत्य अग्नि ब्रह्मका स्वरूप है; क्योंकि ब्रह्मजोसे ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है और यह दक्षिणाग्नि स्वरूप है। होमके आरम्भसे लेकर अन्ततक जिसके मुखमें आहुति डाली जाती है, वह आहवनीय अग्नि स्वयं है, सत्य नामक जो पञ्च अग्नि है, वह स्वानी आतिरेपका स्वरूप है। पृथ्वी गार्हपत्याग्नि, अन्तरिक्ष दक्षिणाग्नि और स्वर्ग आहवनीयाग्नि है। इस प्रकारके अग्निके तीन भेद माने गये हैं। गार्हपत्य अग्नि गोसाधार है; क्योंकि उसकी स्वरूपमत्ता पृथ्वी गोल है। अन्तरिक्षका आधार अर्ध चन्द्रके समान है, इसलिये दक्षिणाग्नि भी बेंठा ही माना गया है। स्वर्गलोक निम्न, निरालय और चौकोना है, इसलिये आहवनीय अग्नि भी चौकोना ही कहालाता गया है। जो गार्हपत्य-अग्निमें हवन करता है, वह

पृथ्वीपर विजय पाता है। दक्षिणाग्निमें हवन करनेवाला पुत्र अन्तरिक्षको जोत लेता है, चित्तु जो मनुष्य भक्तिपुण्य चित्तसे प्रतिदिन आहवनीय अग्निमें हवन करता है वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गमें अति स्वर्गलोचपर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है।

यशोमें सब ओरसे अग्निके मुगमें हवन किया जाता है, इसलिये वह वायुका कानिगान् अग्नि 'आहवनीय' संज्ञाको प्राप्त होता है। अग्निहोत्र अथवा अग्न्याय यशोमें होमके आरम्भसे ही अग्निके भीतर आहुति डाली जाती है, इसलिये भी उसे आहवनीय कहते हैं। जो द्विज आशास्य नामक मूल अग्निमें विधिवत् हवन करता है, वह अपनी पत्नीके साथ सत्त्वयितोरमें आकर अत्यन्त योग्यता है तथा वह सत्य अग्निर्षोका प्रिय हो जाता है। आशास्य अग्निमें जो होम किया जाता है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। वह 'हो' अर्थात् दुःखसे यजमानका प्राण बगता है, इसलिये अग्निहोत्र कहा गया है। आशवेत्ता विद्वाने आध्यात्मिक, आधिर्षिक और आधिर्षोतिक—ये तीन प्रकारके दुःख उतारते हैं। विधिवत् होम करनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके दुःखोंसे यजमानका प्राण करता है, इसलिये उस कर्मको वेदमें अग्निहोत्र नाम दिया गया है। विरविषयाता ब्रह्मजोसे ही सबको पहले अग्निहोत्रको प्रष्ट किया। वेद और अग्निहोत्र स्वतः उत्पन्न हुए हैं—इनका दूसरा कोई जन्म नहीं है। वेदाध्ययनका फल अग्निहोत्र है (अर्थात् वेद पढ़कर जिसने अग्निहोत्र नहीं किया, उसका वह अध्ययन निष्फल है)। शास्त्ररत्नकर फल शीत और तादावार है, शीतका फल रति और पुत्र है तथा धनकी शतलता धान और उपयोग करनेमें है। तीनों वेदोंके मन्त्रोंके संयोगसे अग्निहोत्रकी प्रवृत्ति होती है। ऋषि, यज्ञ और सामवेदेके पवित्र मन्त्रों तथा योमीता-सूत्रोंके द्वारा अग्निहोत्रकर्मका प्रतिपादन किया जाता है।

यजान् ऋषुषो ब्राह्मणका स्वरूप समझना चाहिये तथा वह वेदकी योनिहृष है, इसलिये ब्राह्मणको यजान् ऋषुषे अग्निर्षी स्थापना करनी चाहिये। जो बगन्न ऋषुषे अग्न्याधान करता है, उस ब्राह्मणको बीमूर्खि होगी है तथा उसका वैदिक ज्ञान भी बगता है। क्षत्रियके लिये श्रेष्ठ ऋषुषे अग्न्याधान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो क्षत्रिय श्रेष्ठ ऋषुषे अग्नि-स्थापना करता है उसको सत्यत, प्रजा, परा, धन, तेज, बल और यशकी अतिवृद्धि होगी है। शास्त्रालयी क्षत्रि सातन्त्र वेदका स्वरूप है, इसलिये वेदकी शत्रु ऋषुषे अग्निर्षी आधान करना चाहिये। जो वैश्य शत्रु ऋषुषे अग्नि-स्थापना करता है उसकी सत्यत, प्रजा, मान्, धन और शत्रुकी वृद्धि होगी है। सब प्रकारके राज, धी अग्नि

स्निग्ध पदार्थ, सुगन्धित द्रव्य, रत्न, मणि, सुवर्ण और लोहा—इन सबकी उत्पत्ति अग्निहोत्रके ही लिये हुई है। अग्निहोत्रको ही जाननेके लिये आयुर्वेद, धनुर्वेद, भीमांसा, जिस्तुत न्याय-शास्त्र और धर्मशास्त्रका निर्माण किया गया है। छन्द, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषशास्त्र और निरुक्त भी अग्निहोत्रके ही लिये रचे गये हैं। इतिहास, पुराण, गाथा, उपनिषद् और अथर्ववेदके कर्म भी अग्निहोत्रके ही लिये हैं। तियि, नक्षत्र, योग, सुहूर्त और करणरूप कालका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पूर्वकालमें ज्योतिषशास्त्रका निर्माण हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंके छन्दका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तथा संशय और विकल्पके निराकरणपूर्वक उनका तात्त्विक अर्थ समझनेके लिये छन्दःशास्त्रकी रचना की गयी है। वर्ण, अक्षर और पदोंके अर्थका, संधि और लिङ्गका तथा नाम और धातुका विवेक होनेके लिये पूर्वकालमें व्याकरणशास्त्रका प्रणयन हुआ है। यूप, वेदी और यज्ञका स्वरूप जाननेके लिये, प्रोक्षण और अर्पण (चरु पकाना) आदिकी इतिकर्तव्यताको समझनेके लिये तथा यज्ञ और देवताके सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शिक्षानामक वेदाङ्गकी रचना हुई है। यज्ञके पात्रोंकी शुद्धि, यज्ञसम्बन्धी सामग्रियोंके संग्रह तथा समस्त यज्ञोंके वैकल्पिक विधानोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कल्पका निर्माण हुआ है। सम्पूर्ण वेदोंमें प्रयुक्त नाम, धातु और विकल्पोंके तात्त्विक अर्थका निश्चय करनेके लिये ऋषिर्षेने निरुक्तकी रचना की है। यज्ञकी वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियोंको धारण करनेके लिये ब्रह्माजीने पृथ्वीकी सृष्टि की है। समिधा और यूप बनानेके लिये वनस्पतियोंकी रचना की है। जो ब्राह्मण मन्त्रोंका विनियोग, यज्ञिय पदार्थोंका प्रोक्षण, चरु पकाना, दर्श और पौर्णमासके अङ्गभूत अनुयाज और प्रयाज, वायु-देवताका स्तवन, सामवेदके उद्गाताका कर्म, प्रतिप्रस्थाताका कर्म, दक्षिणा, अवमृयस्नान, त्रिकालपूजन, उचित स्थानपर देवताओंको नैवेद्य अर्पण करना, देवताओंका आवाहन, विसर्जन और हविष्य तैयार करने आदि कर्मोंको नहीं जानते, वे अन्धकारसे भरे हुए घोर रौरव नरकमें पड़ते हैं।

सुवर्ण और चाँदी—ये यज्ञके पात्र और कलश बनानेका काम लेनेके लिये पंदा हुए हैं। कुशोंकी उत्पत्ति हवन-कुण्डके चारों ओर फलाने और राक्षसोंसे यज्ञकी रक्षा करनेके लिये हुई है। यज्ञ तथा पूजाका कार्य करनेके लिये ब्राह्मणोंका प्रादुर्भाव हुआ है। तबकी रक्षाके लिये क्षत्रिय-जातिकी सृष्टि की गयी है। कृषि, गो-रक्षा और वाणिज्य आदि जीविकाका साधन जुटानेके लिये वैश्योंकी उत्पत्ति हुई है और तीनों

वर्णोंकी सेवाके लिये ब्रह्माजीने शूद्रोंको उत्पन्न किया है। इस प्रकार सम्पूर्ण जगत् अग्निहोत्रके ही लिये रचा गया है। जो मनुष्य अज्ञानान्धकारसे आच्छादित होनेके कारण इस बातको नहीं जानते, वे रौरव नामसे प्रसिद्ध भयानक नरकमें पड़ते हैं तथा उससे छूटनेपर उनका कृमि (कीड़े) की योनिमें जन्म होता है। जो द्विज विधिपूर्वक अग्निहोत्रका सेवन करते हैं उनके द्वारा दान, होम, यज्ञ और अध्यापन—ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणोंके द्वारा जो यज्ञ करने, वगीचे लगाने और कुएँ खुदवाने आदिके कार्य होते हैं, उन सबके पुण्यको लेकर मैं सूर्यमण्डलमें स्थापित कर देता हूँ। मेरे द्वारा स्थापित किये हुए संसारके पुण्य और अग्निहोत्रियोंके सुकृतको सूर्यदेव धारण किये रहते हैं। अग्निहोत्री पुरुष स्वर्गमें जाकर अग्निहोत्रके पुण्य-फलका उपभोग करते हैं और सम्पूर्ण भूतोंके प्रलय होने तक वे देवताओंके समान रूप धारण करके वहाँ निवास करते हैं। कपटपूर्वक वीरोंकी हत्या करनेवाले दुराचारी मनुष्य दरिद्र, अङ्गहीन और रोगी होकर शूद्र-योनिमें जन्म लेते हैं (यही गति अग्निहोत्रका त्याग करनेवालोंकी भी होती है।) इसलिये जो द्विज परदेशमें न रहते हों और ऊर्ध्वगतिको प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन विधिपूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिये। अग्निहोत्रको अपने आत्माके समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षणके लिये भी त्याग नहीं करना चाहिये। जो बाल्यकालसे ही अग्निहोत्रका सेवन करते और शूद्रके अप्ससे सदा दूर रहते हैं, जिनपर क्रोध और लोभका प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेन्द्रियभावसे विधिवत् अग्निहोत्रका अनुष्ठान करते, अतिथिकी सेवामें लगे रहते तथा शान्तभावसे रहकर दोनों समय मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्यमण्डलको भेदकर मेरे परम धामको प्राप्त होते हैं, जहाँसे पुनः इस संसारमें नहीं लौटना पड़ता। वे उदयकालीन सूर्यके समान कान्तिमान् विमानोंपर बैठकर अपनी स्त्रीसहित मेरे लोकमें जाते हैं और बालसूर्यके समान तेजस्वी होकर इच्छानुसार रूप धारण करते तथा जहाँ चाहते, वहाँ विचरते रहते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वरीय गुणोंसे सम्पन्न होकर वे वहाँ अपनी भौजके अनुसार शीड़ाएँ करते रहते हैं। पाण्डुनन्दन! अग्निहोत्रियोंकी ऐसी ही विभूति होती है। इस संसारमें कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुतिपर दोषारोपण करते हुए उसकी निन्दा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानते; ऐसे लोगोंकी बड़ी दुर्गति होती है। परंतु जो द्विज आस्तिक्यबुद्धिसे युक्त होकर वेदों और इतिहासोंको प्रामाणिक मानते हैं, वे देवताओंका सामुज्य प्राप्त करते हैं।

चान्द्रायण-व्रतकी विधि, उसके करनेके निमित्त तथा महिमाका वर्णन

मुष्टिष्ठिरने कहा—गङ्गध्वज ! अब आप मुझे चान्द्रायणकी परम धारण विधिका वर्णन कीजिये ।

भगवान्ने कहा—पाण्डुरत्न ! समस्त पापोंका नाश करनेवाले चान्द्रायण-व्रतका यथायं वर्णन सुनो । इसके आचरणसे पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं । उसमें व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य—जो कोई भी चान्द्रायण-व्रतका विधिवत् अनुष्ठान करना चाहते हैं, उनके लिये पहला काम यह है कि वे नियमके अंदर रहकर पञ्च-गव्यके द्वारा समस्त शरीरका शोधन करें । फिर कृष्णपक्षके अन्तमें मस्तकसहित दाड़ी-मूँछ आदिका मूष्डन करावें । तत्पश्चात् स्नान करके शुद्ध हो खेत वस्त्र धारण करें, कमरमें मूँजकी घनी हुई मेलला बाँधें और पलाशका बण्ड हाथमें लेकर ब्रह्मचारीके व्रतका पालन करते रहें । द्विजकी चाहिये कि वह पहले विन उपवास करके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाको नदियोंके संगमपर, किसी पवित्र स्थानमें अपना घरपर ही व्रत आरम्भ करे । पहले नित्य-नियमसे नियत होकर एक वेदीपर अग्निकी स्थापना करे और उसमें क्रमशः आघार, आग्न्यभाग, प्रणय, महाब्याहृति और पञ्चवारण होम करके सत्य, विष्णु, ब्रह्मविष्णु, ब्रह्मा, विरवेदेव तथा प्रजापति—इन छः देवताओंके निमित्त हवन करे । अन्तमें प्रायश्चित्त-होम करके हवनका कार्य समाप्त करे । फिर शान्ति और पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान करके अग्नि तथा सोमदेवताकी प्रणाम करे और विधिपूर्वक शरीरमें मसम सगाकर नवोंके तटपर जा विरुद्धचित्त होकर सोम, वरुण तथा आदित्यकी प्रणाम करके एकाग्रभावसे जलमें स्नान करे । इसके बाद बाहर निकलकर आचमन करनेके पश्चात् पूर्वामिमुख होकर बैठे और प्राणायाम करके कुशाकी पवित्रीसे अपने शरीरका मार्जन करे । फिर आचमन करके दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर सूर्यका दर्शन करे और हाथ जोड़कर लक्ष्मी हो सूर्यकी प्रार्थना करे । उस समय नारायण, रुद्र, ब्रह्मा या वरुणसम्बन्धी सूक्तका पाठ करे अथवा धीरमन, श्रद्धम, अधमर्षण, गामवी या मुमूक्षे सम्बन्ध रखनेवाले वेदमन्त्रका जप करे । यह जप सौ बार या एक सौ आठ बार अथवा एक हजार बार करना चाहिये । तदनन्तर, पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर मध्याह्नकालमें मलपूर्वक स्नान या जीवी सत्पत्नी बनाकर तैयार करे अथवा सोने, चाँदी, लोहे, मिट्टी या मृत्तरकी सक्कीका पात्र अथवा यज्ञके लिये उपयोगी वृक्षके हरे पत्तोंका डोना बनाकर हाथमें ले ले और उसकी ऊपरसे षक से । फिर

सामधानतापूर्वक सान ब्राह्मणोंके घरपर जाकर विशा माँगे, सातमे अधिक घरोंपर न जाय । भी दुहनेमें जिनकी देर सगती है उतने ही समयतक एक द्वारपर लक्ष्मी शौचर विशा लिये प्रणामा करे, सोन रहे और इन्द्रियोंपर बाध रखे । विशा माँगेनेवाला पुत्र्य न तो रहे, न इष्ट-उष्ट इष्टि हाने और न किसी स्त्रीमें शालचीन करे । यदि मय, मूत्र, चापलाय, रजस्वला स्त्री, पतिन मनुष्य तथा पुत्तोर इष्टि पड़ जाय तो सूर्यका वर्णन करे ।

तदनन्तर, अपने घर आकर विशापात्रकी जघनपर रखे और पँरोंकी घुटनोंतक तथा हाथोंकी दोनों कोहलियोंतक धो डाले । इसके पार जागने आचमन करके अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करे । फिर उम विशाके पाँच या सात भाग करके उतने ही पिण्ड बना से । उनमेंसे एक-एक पिण्ड क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, सोम, वरुण तथा विरवेदेवोंके निवेदन करे और अन्तमें जो एक पिण्ड बच जाय उसको ऐसा बना से, जिसमें वह सुगमतापूर्वक घूर्णन आ सके । फिर पवित्र भावसे पूर्वामिमुख होकर उस पिण्डकी इष्टिने हाथकी अङ्गुलियोंके अग्रभागपर रखकर माधवी-अन्त्रमें अग्निपन्त्रण करे और तीन अङ्गुलियोंसे ही उसे घूर्णन आचमन करा जाय । जैसे चन्द्रमा शुकलपक्षमें प्रतिदिन बढ़ता और कृष्णपक्षमें प्रतिदिन घटता रहता है, उन्नी प्रकाश विद्योको मात्रा भी शुकलपक्षमें बढ़ती और कृष्णपक्षमें घटती रहती है ।* चान्द्रायणव्रत करनेवालेके लिये प्रतिदिन तीन समय, दो समय अथवा एक समय भी स्नान करनेका विधान मिलता है । उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिये । दिनमें एक बगल पड़ा न रहे, रातकी सोरातनेगे डेंडे अपना वेदीपर या कुशकी जड़पर सो रहे । चन्द्रन, रेगम, मन अथवा बपागला चण्ड धारण करे । इन प्रकार एक महीने बाद चान्द्रायणव्रत पूर्ण होनेपर उद्योग करके शक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंके भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे । चान्द्रायणव्रतके आचरणमें मनुष्यके

* अर्थात् शुकलपक्षकी प्रतिपदाको एक पिण्ड और द्वितीयाको दो पिण्ड भोजन करना चाहिये । इसी तरह पूर्णिमाको पंद्रह पात्र भोजन करने कृष्णपक्षकी प्रीपदामें चतुर्दशीतक प्रतिदिन एक-एक पात्र नम करना चाहिये । अमावास्याको उपवास करनेपर इस प्रकारी गमार्ति होती है । यह एक प्रकारका चान्द्रायण है । मृत्पिण्डि शकते और भी अनेकों प्रकार उपनय्य होी है ।

स्निग्ध पदार्थ, सुगन्धित द्रव्य, रत्न, मणि, सुवर्ण और लोहा— इन सबकी उत्पत्ति अग्निहोत्रके ही लिये हुई है। अग्निहोत्रको ही जाननेके लिये आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय-शास्त्र और धर्मशास्त्रका निर्माण किया गया है। छन्द, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषशास्त्र और निरुक्त भी अग्निहोत्रके ही लिये रचे गये हैं। इतिहास, पुराण, गाथा, उपनिषद् और अथर्ववेदके कर्म भी अग्निहोत्रके ही लिये हैं। तिर्यि, नक्षत्र, योग, मूर्हत और करणरूप कालका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पूर्वकालमें ज्योतिषशास्त्रका निर्माण हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंके छन्दका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तथा संशय और विकल्पके निराकरणपूर्वक उनका तात्त्विक अर्थ समझनेके लिये छन्दःशास्त्रकी रचना की गयी है। वर्ण, अक्षर और पदोंके अर्थका, संधि और लिङ्गका तथा नाम और धातुका विवेक होनेके लिये पूर्वकालमें व्याकरणशास्त्रका प्रणयन हुआ है। यूप, वेदी और यज्ञका स्वरूप जाननेके लिये, प्रोक्षण और श्रपण (चरू पकाना) आदिकी इतिकर्तव्यताको समझनेके लिये तथा यज्ञ और देवताके सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शिक्षानामक वेदाङ्गकी रचना हुई है। यज्ञके पात्रोंकी शुद्धि, यज्ञसम्बन्धी सामग्रियोंके संग्रह तथा समस्त यज्ञोंके वैकल्पिक विधानोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कल्पका निर्माण हुआ है। सम्पूर्ण वेदोंमें प्रयुक्त नाम, धातु और विकल्पोंके तात्त्विक अर्थका निश्चय करनेके लिये ऋषियोंने निरुक्तकी रचना की है। यज्ञकी वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियोंको धारण करनेके लिये ब्रह्माजीने पृथ्वीकी सृष्टि की है। समिधा और यूप बनानेके लिये वनस्पतियोंकी रचना की है। जो ब्राह्मण मन्त्रोंका विनियोग, यज्ञिय पदार्थोंका प्रोक्षण, चरू पकाना, दश और पीर्णमासके अङ्गभूत अनुयाज और प्रयाज, वायु-देवताका स्तवन, सामवेदके उद्गाताका कर्म, प्रतिप्रस्थाताका कर्म, दक्षिणा, अवमृथस्नान, त्रिकालपूजन, उचित स्थानपर देवताओंको नैवेद्य अर्पण करना, देवताओंका आवाहन, विसर्जन और हविष्य तैयार करने आदि कर्मोंको नहीं जानते, वे अग्धकारसे भरे हुए घोर रौरव नरकमें पड़ते हैं।

सुवर्ण और चाँदी—ये यज्ञके पाल और कलश बनानेका काम लेनेके लिये पैदा हुए हैं। कुशोंकी उत्पत्ति हवन-कुण्डके चारों ओर फैलाने और राक्षसोंसे यज्ञकी रक्षा करनेके लिये हुई है। यज्ञ तथा पूजाका कार्य करनेके लिये ब्राह्मणोंका प्रादुर्भाव हुआ है। सबकी रक्षाके लिये क्षत्रिय-जातिकी सृष्टि की गयी है। कृषि, गो-रक्षा और वाणिज्य आदि जीविकाका साधन जुटानेके लिये वैश्योंकी उत्पत्ति हुई है और तीनों

वर्णोंकी सेवाके लिये ब्रह्माजीने शूद्रोंको उत्पन्न किया है। इस प्रकार सम्पूर्ण जगत् अग्निहोत्रके ही लिये रचा गया है। जो मनुष्य अज्ञानाग्धकारसे आच्छादित होनेके कारण इस बातको नहीं जानते, वे रौरव नामसे प्रसिद्ध भयानक नरकमें पड़ते हैं तथा उससे छूटनेपर उनका कृमि (कीड़े) की योनिमें जन्म होता है। जो द्विज विधिपूर्वक अग्निहोत्रका सेवन करते हैं उनके द्वारा दान, होम, यज्ञ और अध्यापन—ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणोंके द्वारा जो यज्ञ करने, वगीचे लगाने और कुएँ खुदवाने आदिके कार्य होते हैं, उन सबके पुण्यको लेकर मैं सूर्यमण्डलमें स्थापित कर देता हूँ। मेरे द्वारा स्थापित किये हुए संसारके पुण्य और अग्निहोत्रियोंके सुकृतको सूर्यदेव धारण किये रहते हैं। अग्निहोत्री पुरुष स्वर्गमें जाकर अग्निहोत्रके पुण्य-फलका उपभोग करते हैं और सम्पूर्ण भूतोंके प्रलय होने तक वे देवताओंके समान रूप धारण करके वहाँ निवास करते हैं। कपटपूर्वक वीरोंकी हत्या करनेवाले बुरा-चारी मनुष्य दरिद्र, अङ्गहीन और रोगी होकर शूद्र-योनिमें जन्म लेते हैं (यही गति अग्निहोत्रका त्याग करनेवालोंकी भी होती है।) इसलिये जो द्विज परदेशमें न रहते हों और ऊर्ध्वगतिको प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन विधिपूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिये। अग्निहोत्रको अपने आत्माके समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षणके लिये भी त्याग नहीं करना चाहिये। जो बाल्यकालसे ही अग्निहोत्रका सेवन करते और शूद्रके अघसे सदा दूर रहते हैं, जिनपर क्रोध और लोभका प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेन्द्रियभावसे विधिवत् अग्निहोत्रका अचुष्ठान करते, अतिथिकी सेवामें लगे रहते तथा शान्तभावसे रहकर दोनों समय मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्यमण्डलको भेदकर मेरे परम धामको प्राप्त होते हैं, जहाँसे पुनः इस संसारमें नहीं लौटना पड़ता। वे उदयकालीन सूर्यके समान कान्तिमान् विमानोंपर बैठकर अपनी स्त्रीसहित मेरे लोकमें जाते हैं और बालसूर्यके समान तेजस्वी होकर इच्छानुसार रूप धारण करते तथा जहाँ चाहते, वहाँ विचरते रहते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वरीय गुणोंसे सम्पन्न होकर वे वहाँ अपनी भोजके अनुसार क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। पाण्डुनन्दन! अग्निहोत्रियोंकी ऐसी ही विभूति होती है। इस संसारमें कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुतिपर दोषारोपण करते हुए उसकी निन्दा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानते; ऐसे लोगोंकी बड़ी दुर्गति होती है। परन्तु जो द्विज आस्तिक्यबुद्धिसे युक्त होकर वेदों और इतिहासोंको प्रायोगिक मानते हैं, वे देवताओंका सायुज्य प्राप्त करते हैं।

चान्द्रायण-व्रतकी विधि, उसके करनेके निमित्त तथा महिमाका वर्णन

मुग्धिष्ठिरने कहा—गर्हपत्य ! अब आप मुझमें चान्द्रायणकी परम पावन विधिकी वर्णन कीजिये ।

भगवान्‌ने कहा—आशुतन्वन् ! समस्त पापोंका नाश करनेवाले चान्द्रायण-व्रतका यथायं वर्णन मुझे । इसके आचरणसे पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं । उतम व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य—जो कोई भी चान्द्रायण-व्रतका विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहते हैं, उनके लिये पहला काम यह है कि वे नियमके अंदर रहकर पञ्च-गव्यके द्वारा समस्त शरीरका शोधन करें । फिर वृष्णपक्षके अन्तमें मस्तकसहित दाढ़ी-मूँछ आदिका मुण्डन करावें । तत्परवात् स्नान करके शुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण करें, कमरमें मूँजकी बनी हुई सेलता बाँधें और पलासाका दण्ड हाथमें लेकर बह्मचारीके ततका पालन करते रहें । द्विजको चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाको मद्यिके संगमपर, किसी पवित्र स्थानमें अथवा घरपर ही व्रत आरम्भ करे । पहले नित्य-नियमसे निवृत्त होकर एक वेदीपर अग्निकी स्थापना करे और उसमें क्रमशः आपार, आश्वभाग, प्रणव, महाव्याहृति और पञ्चवादन होम करके सत्य, विष्णु, ब्रह्मविष्णु, ब्रह्मा, विश्वेदेव तथा प्रजापति—इन छः देवताओंके निमित्त हवन करे । अन्तमें प्राप्रिचस्त-होम करके हवनका कायं समाप्त करे । फिर शान्ति और पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान करके अग्नि तथा सोमदेवताको प्रणाम करे और विधिपूर्वक शरीरमें भस्म लगाकर नदीके तटपर या विशुद्धचित्त होकर सोम, वषण तथा आदित्यको प्रणाम करके एकाग्रभावसे जलमें स्नान करे । इसके बाद बाहर निकलकर आचमन करनेके परवात् पूर्वार्धिमुष्ट होकर बँडे और प्राणायाम करके कुशाकी पवित्रीसे अपने शरीरका मार्जन करे । फिर आचमन करके दोनों मुजाएँ ऊपर उठाकर सूर्यका दर्शन करे और हाथ जोड़कर लक्ष्मी हो सूर्यकी प्रदक्षिणा करे । उस समय नारायण, रुद्र, ब्रह्मा या वरुणसम्बन्धी सूक्तका पाठ करे अथवा वीरघ्न, श्रुघ्न, अयमवर्षण, गायत्री या मुक्ते सम्बन्ध रखनेवाले वैष्णव मन्त्रका जप करे । यह जप सो बार या एक सो आठ बार अथवा एक हजार बार करना चाहिये । तदनन्तर, पवित्र एवं एकप्रश्रित होकर मध्याह्नकालमें यत्नपूर्वक खीर या जौकी लत्पी बनाकर तैमार करे अथवा सोने, चाँदी, ताँबे, मिट्टी या गुलकी लकड़ीका पाव अथवा दन्तके लिये उपयोगी वृक्षोंके हरे पत्तोंका दोना बनाकर हाथमें से ले और उसको ऊपरसे डक लें । फिर

सावधानतापूर्वक तान बाल्योंके घरपर जाकर मिशा मर्गि, सातमे अधिक घरोंपर न जाय । गौ दुग्धमें जिनकी देर लगती है उतने ही समयतक एक द्वारपर लड़ा होकर मिशाने लिये प्रतीक्षा करे, मौन रहे और इन्द्रियोंपर ब्रह्म रखे । मिशा माँगनेवाला पुरुष न तो होवे, न द्वार-उपर दृष्टि डाले और न किसी स्त्रीमें बातचीत करे । यदि मन, सूत्र, बाल्यमान, रजस्वला स्त्री, पवित्र मनुष्य तथा कुत्तेर दृष्टि पड़ जाय तो सूर्यका दर्शन करे ।

तदनन्तर, अपने घर आकर मिशालाजकी उम्मीदपर रस दे और परोंकी घृत्नीतक तथा हाथोंकी दोनों कोट्टिननोंक घो डालें । इसके बाद जलमें आचमन करके अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करे । फिर उस मिशाले परब या तान भला करके उतने ही पिण्ड बना लें । उनमेंसे एक-एक पिण्ड वयसः सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, सोम, वषण तथा विरदेवोंकी निवेदन करे और अन्तमें जो एक पिण्ड बच जाय उसको ऐसा बना लें, जिससे वह सुगमतापूर्वक सूर्यमें आ सके । फिर पवित्र भावसे पूर्वार्धिमुष्ट होकर उस पिण्डको बाह्ये हाथकी अङ्गुलियोंके अग्रभागपर रसकर गायत्री-मन्त्रमें अग्निवर्जित करे और तीन अङ्गुलियोंमें ही उसे सूर्यमें डालकर रण जाय । जैसे चन्द्रमा शुक्लपक्षमें प्रतिदिन बढ़ता और वृष्णपक्षमें प्रतिदिन घटता रहता है, उन्ही प्रकार पिण्डोंकी मात्रा भी शुक्लपक्षमें बढ़ती और वृष्णपक्षमें घटती रहती है ।* चान्द्रायणव्रत करनेवालेके लिये प्रतिदिन तीन तपय, दो समय अथवा एक समय भी स्नान करनेका विधान मिलता है । उसे तदा बह्मचारी रहना चाहिये । दिनमें एक अण्ड लड़ा न रहे, शस्त्रों कीदासलने बँडे अथवा वेदीपर या कुशी जड़पर सो रहे । वस्त्र, रेशम, मल अथवा कृपागवा काय धारण करे । इन प्रकार एक महीने बाद चान्द्रायणव्रत पूर्ण होनेपर उद्योग करके मक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी भोजन कराये और उन्हें बलिदा दे । चान्द्रायणव्रतके आचरणसे मनुष्यके

* अर्थात् शुक्लपक्षकी प्रतिपदाकी एक पिण्ड और द्वितीयाकी दो पिण्ड भोजन करना चाहिये । इसी तरह पूर्वमासीके पंद्रह प्राग भोजन करने वृष्णपक्षकी प्रतिपदाके चतुर्दशीतक प्रतिदिन एक-एक प्राग व्रत करना चाहिये । अथावास्वामी उपवास करनेपर इन व्रतकी मर्यादा हीकी है । यह एक प्रकारका चान्द्रायण है । मृगशिराके व्रतके और भी अनेकों प्रकार उल्लेख होते हैं ।

समस्त पाप सूखे काठकी भाँति तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं। ब्रह्महत्या, गो-हत्या, सुवर्णकी चोरी, चूण-हत्या, मदिरा-पान और गुरु-स्त्री-गमन आदि जितने भी पाप या पातक होते हैं, वे चान्द्रायणव्रतसे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवाके वेगसे धूल उड़ जाती है। जिस गौको व्याधे हुए दस दिन भी न हुए हों, उसका दूध तथा अँटनी एवं भेड़का दूध पी जानेपर और मरणाशीच तथा जननाशीचका अन्न, उपपातकी तथा पतितका अन्न और शूद्रका जूठा अन्न खा लेनेपर चान्द्रायणव्रतका आचरण करना चाहिये। आकाशमें लटकते हुए वृक्ष आदिके फलोंको, हाथपर रखे हुए, नीचे गिरे हुए तथा दूसरेके हाथपर पड़े हुए अन्नको खा लेनेपर भी चान्द्रायणव्रतका आचरण आवश्यक हो जाता है। बड़े भाईके अविवाहित रहते विवाह करनेवाले छोटे भाईका और अविवाहित बड़े भाईका अन्न, पुजारीका अन्न तथा पुरोहितका अन्न भोजन कर लेनेपर भी चान्द्रायणव्रत करना चाहिये। मदिरा, आसव, विष, धी, लाख, नमक और तेलकी बिक्री करने-

वाले ब्राह्मणको भी चान्द्रायणव्रत करना आवश्यक है। जो द्विज अधिक मनुष्योंकी भीड़में भोजन करता तथा फूटे बर्तनोंमें खाता है, जो उपनयन-संस्कारसे रहित बालक, कन्या और स्त्रीके साथ (एक पात्रमें) भोजन करता है तथा जो मोहवश अपना जूठा दूसरेके भोजनमें मिला देता अथवा दूसरेको देता है, उस ब्राह्मणको भी चान्द्रायणव्रतका आचरण करना चाहिये। यदि द्विज प्याज, गाजर, छत्राक (कुकुरमुत्ते), लहसुन, वासी अन्न, दूसरेके घरसे उठाकर आये हुई रसोई, मांस तथा रजस्वला स्त्री, कुत्ते अथवा चाण्डालके द्वारा देखा हुआ अन्न खा ले तो उसके लिये चान्द्रायणव्रतका आचरण अनिवार्य हो जाता है। पूर्वकालमें ऋषियोंने आत्मशुद्धिके लिये इस व्रतका आचरण किया था, यह सब प्राणियोंको पवित्र करनेवाला और पुण्यरूप है। जो द्विज इस परम गोपनीय, पवित्र एवं पापनाशक व्रतका अनुष्ठान करता है वह पवित्रात्मा तथा निर्मल सूर्यके समान तेजस्वी होकर स्वर्गलोकको प्राप्त होता है।

सर्वहितकारी धर्मका वर्णन, द्वादशी-व्रतका साहात्म्य तथा युधिष्ठिरके द्वारा भगवान्की स्तुति

युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! अब आप मुझसे समस्त प्राणियोंके लिये हितकारी धर्मका वर्णन कीजिये।

भगवान्ने कहा—युधिष्ठिर ! जो धर्म दरिद्र मनुष्योंको भी स्वर्ग और सुख प्रदान करनेवाला तथा समस्त पापोंका नाश करनेवाला है, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो। जो मनुष्य एक वर्षतक प्रतिदिन एक समय भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोधको कावूमें रखता, नीचे सोता और इन्द्रियोंको वशमें रखता है; जो स्नान करके पवित्र रहता, व्यग्र नहीं होता, सत्य बोलता, किसीके दोष नहीं देखता और मुझमें चित्त लगाकर सदा मेरी पूजामें ही संलग्न रहता है; जो दोनों संध्याओंके समय एकाग्रचित्त होकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्रीका जप करता, 'नमो ब्रह्मण्यदेवाय' कहकर सदा मुझे प्रणाम किया करता, पहले ब्राह्मणको भोजनके आसनपर बिठाकर भोजन करानेके पश्चात् स्वयं मौन होकर जौकी लप्ती अथवा भिक्षान्नका भोजन करता तथा 'नमोऽस्तु वासुदेवाय' कहकर ब्राह्मणके चरणोंमें प्रणाम करता है; जो प्रत्येक मास समाप्त होनेपर पवित्र ब्राह्मणोंको भोजन कराता और एक सालतक इस नियमका पालन करके ब्राह्मणको इसकी दक्षिणाके रूपमें माखन अथवा तिलकी गौ दान करता है तथा ब्राह्मणके हाथसे सुवर्णपुवत जल लेकर अपने शरीरपर छिड़कता है, उसके जान-भूझकर या अनजानमें किये हुए दस जन्मोंतकके

पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं—इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! सब प्रकारके उपवासोंमें जो सबसे श्रेष्ठ, महान् फल देनेवाला और कल्याणका सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करनेकी कृपा कीजिये।

भगवान्ने कहा—राजन् ! जो व्रत मुझे भी अत्यन्त प्रिय है, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो। जो पुरुष स्नान आदिले पवित्र होकर मेरी पञ्चमीके दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता तथा तीनों समय मेरी पूजामें संलग्न रहता है, वह सम्पूर्ण यत्नोंका फल पाकर मेरे परम धाममें प्रतिष्ठित होता है। अमावस्या और पूर्णिमा—ये दोनों पर्व, दोनों पक्षकी द्वादशी और श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशी—ये पाँच तिथियाँ मेरी पञ्चमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष प्रिय हैं, अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करनेके लिये मुझमें चित्त लगाकर इन तिथियोंमें उपवास करें। जो सबमें उपवास न कर सके, वह केवल द्वादशीको ही उपवास करे; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मार्गशीर्षकी द्वादशीको दिन-रात उपवास करके 'केशव' नामसे मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। जो पौष मासकी द्वादशी तिथिको उपवास करके 'नारायण' नामसे मेरा पूजन करता है, वह वाजिमेध-यज्ञका फल पाता है। जो माघकी द्वादशीको

उपवास करके 'माधव' नामसे मेरी पूजा करता है, उसे राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त होता है। काल्युतके महीनेमें द्वादशीको उपवास करके जो 'गोविन्द' के नामसे मेरा अर्चन करता है, उसे अतिराज पागका फल मिलता है। चंद्र महीनेको द्वादशी तिथिको व्रत धारण करके जो 'विष्णु' नामसे मेरी पूजा करता है, वह पुण्डरीक-यज्ञके फलका भागी होता है। धरालकको द्वादशीको उपवास करके 'मधुसूदन' नामसे मेरी पूजा करनेवालेको अग्निष्टोम-यज्ञका फल मिलता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मासको द्वादशी तिथिको उपवास करके 'विक्रम' नामसे मेरी पूजा करता है, वह गोमेघके फलका भागी होता है। आषाढ़ मासको द्वादशीको व्रत रहकर 'धामन' नामसे मेरी पूजा करनेवाले पुण्डरीक नरमेघ-यज्ञका फल प्राप्त होता है। श्रावणके महीनेमें द्वादशी तिथिको उपवास करके जो 'श्रीधर' नामसे मेरा पूजन करता है, वह पञ्च-यज्ञोंका फल पाता है। माघपद मासको द्वादशी तिथिको उपवास करके 'द्वीपीकेश' नामसे मेरा अर्चन करनेवालेको सौत्रामणि-यज्ञका फल मिलता है। आश्विनके द्वादशीको उपवास करके जो 'पद्मनाभ' नामसे मेरा अर्चन करता है, उसे एक हजार गो-दानका फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीनेको द्वादशी तिथिको व्रत रहकर जो 'दामोदर' नामसे मेरी पूजा करता है, उसको सम्पूर्ण यज्ञोंका फल मिलता है। जो द्वादशीको केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वोक्त फलका आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावणमें भी यदि मनुष्य भक्तिपूर्वक चित्तसे मेरी पूजा करता है तो वह मेरी सार्वभौम्य भक्तिको प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त रूपसे प्रतिमास आत्मस्य छोड़कर मेरी पूजा करते-करते जब एक साल पूरा हो जाय तो पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन आरम्भ कर दे। इस प्रकार मेरी आराधनामें तत्पर होकर जो भक्त बारह वर्षतक बिना किसी विघ्न-बाधाके मेरी पूजा करता रहता है, वह मेरे स्वस्वको प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथिको प्रेमपूर्वक मेरी और वेदसंहिताकी पूजा करता है, उसे निःसंदेह पूर्वोक्त फलोंकी प्राप्ति होती है। जो द्वादशी तिथिको मेरे लिये चन्दन, गुण्य, फल, जल, पत्र

अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा जिय बल्य कोई नहीं है। मुग्धिष्ठर! इतक आदि सम्पूर्ण देवता उप-युक्त विधिसे मेरा भजन करनेके कारण ही आज स्वर्गोद मुक्तका उपभोग कर रहे हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! भगवान् श्रीहृषिके इत प्रकार उदरेण बेनेपर राजा मुग्धिष्ठर हाथ छोड़कर भक्तिपूर्वक उनरी इम प्रकार स्तुति करने लगे—
 'हृषीकेश! आप सम्पूर्ण लोकोके स्वामी और देवताओंके भी ईश्वर हैं, आपकी नमस्कार है। हृत्कारों नेत्र धारण करनेवाले परनेश्वर! आपके सहस्रों मस्तक हैं, आररो मेरा प्रणाम है। वेदत्रयो आपका स्वस्व है, तीनों वेदोंके भाग अधीश्वर हैं, वेदत्रयोके द्वारा आपको ही स्तुति हो गयी है; आररो बारबार नमस्कार है। आप धार भुजाधारो, विरस्वय, जगत्के अधीश्वर तथा सम्पूर्ण लोकोके आत्मात्मान हैं, आररो मेरा प्रणाम है। नरसिंह! आप ही इत जगत्को सृष्टि और संहार करनेवाले हैं, आपकी नमस्कार है। अक्षोके जियतम श्रीहृष्य! आपको बारबार प्रणाम है। भजनरगत। आप सम्पूर्ण लोकोके और योग्योके जिय हैं, योग्योके स्वामी हैं। आपने ही हृष्योव अवतार धारण किया था। अक्ष-पाणे! आपको बारबार नमस्कार है।'

धर्मराज मुग्धिष्ठर अब भक्तिपूर्वक आगेते इम प्रकार भगवान्को स्तुति करने लगे तो उन्होंने प्राप्रतापूर्वक धर्म-राजका हाथ पकड़कर उन्हें रोका और इस प्रकार कहा—
 'राजन्! यह क्या? तुम मेरी स्तुति क्यों करने लगे? इसे बंद करके पहलेके ही समान प्रान करो।'

मुग्धिष्ठरने पुष्टा—भगवन्! हृष्यसत्तमें द्वादशीको आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये? इस धर्मपुत्र विप्रका वर्णन कीजिये।

भगवान्ने कहा—राजन्! मैं पुर्वेक तुम्हारे साथी प्रसन्नोका उत्तर देता हूँ, सुनो। हृष्यसत्तकी द्वादशीको मेरी पूजा करनेका बहुत बड़ा फल है। एकादशीको उपवास करके द्वादशीको मेरा पूजन करना चाहिये। उस दिन भक्तिपूर्वक चित्तसे बहस्रस्रोत्रा भी पूजन करना उचित है। ऐसा करनेसे मनुष्य बलिष्ठाभूतिरको अथवा मुन्ने प्राप्न होता है।

विषुव योग और ग्रहण आदिमें दानकी महिमा, पीपलका महत्त्व, तीर्थभूत गुणोंकी प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित्त

वैशम्पायनजी कहते हैं—भगवान् श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर राजा युधिष्ठिरने पुनः दानके समय और उसकी विशेष विधिसे विषयमें प्रश्न किया—‘भगवन् ! विषुव योगमें तथा सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणके समय दान देनेसे किस फलकी प्राप्ति बतायी गयी है, यह बतालानेकी कृपा करो ।’

भगवान्ने कहा—राजन् ! विषुव योग में, सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणके समय तथा व्यतीपात योगमें जो दान दिया जाता है, वह अक्षय फल देनेवाला होता है; इस विषयका वर्णन करता हूँ, सुनो । उत्तरायण और दक्षिणायनके मध्य-भागमें जब कि रात और दिन बराबर होते हैं, वह समय ‘विषुव योग’ के नामसे पुकारा जाता है । उस दिन संध्याके समय में, ब्रह्मा और महादेवजी क्रिया, करण और कार्योंकी एकतापर विचार करनेके लिये एक वार एकत्रित होते हैं । जिस मूहूर्तमें हमलोगोंका समागम होता है, वह परम पवित्र और विषुवपर्वके नामसे प्रसिद्ध है; उसे अक्षरब्रह्म और परब्रह्म भी कहते हैं । उस मूहूर्तमें सब लोग परम पदका चिन्तन करते हैं । देवता, वसु, रुद्र, पितर, अश्विनोकुमार, साध्यगण, विश्वेदेव, गन्धर्व, सिद्ध, ब्रह्मर्षि, सोम आदि ग्रह, नदियाँ, समुद्र, मरुत, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और गृह्यक—ये तथा दूसरे देवता भी विषुवपर्वमें इन्द्रियसंयमपूर्वक उपवास करते और प्रयत्नपूर्वक परमात्माके ध्यानमें संलग्न होते हैं । इसलिये युधिष्ठिर ! तुम अन्न, गौ, तिल, भूमि, कन्या, धर, विश्रामस्थान, धन, वाहन, शय्या तथा और जो वस्तुएँ दानके योग्य बतलायी गयी हैं, उन सबका विषुवपर्वमें दान करो । उस समय विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दिये हुए दानका कमी नाश नहीं होता, वह प्रतिदिन बढ़ते-बढ़ते करोड़गुना हो जाता है ।

आकाशमें जब चन्द्रग्रहण अथवा सूर्यग्रहण लगा हो, उस समय जो मेरी अथवा भगवान् शंकरकी गायत्रीका जप करता तथा भक्तिके साथ शङ्ख, त्र्यम्बक और घण्टा बजाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो । मेरे सामने गीत गाने, होम और जप करने तथा मेरे उत्तम नार्मोंका कीर्तन करनेसे राहु दुर्बल और चन्द्रमा बलवान् होते हैं । सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहण-कालमें श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको जो दान दिया जाता है, वह हजारगुना होकर दाताको मिलता है । महान् पातकी मनुष्य भी उस दानसे तत्काल पापरहित हो जाता है

और सुन्दर विमानपर बैठकर चन्द्रलोकमें गमन करता है तथा जबतक आकाशमें चन्द्रमाके साथ तारे मौजूद रहते हैं, तबतक चन्द्रलोकमें वह सम्मानके साथ निवास करता है । फिर समयानुसार वहाँसे लौटनेपर इस संसारमें वह वेद-वेदाङ्गोंका विद्वान् ब्राह्मण होता है ।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! आपकी गायत्रीका जप किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है—यह बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान्ने कहा—राजन् ! द्वादशी तिथिको, विषुव-पर्वमें, चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय, उत्तरायण तथा दक्षिणायनके आरम्भके दिन, श्रवण नक्षत्रमें तथा व्यतीपात योगमें पीपलका तथा मेरा दर्शन होनेपर मेरी गायत्रीका अथवा अष्टाक्षर मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यके पूर्वोपाजित पापोंका निःसंदेह नाश हो जाता है ।

युधिष्ठिरने पूछा—देव ! अब यह बतलाइये कि पीपलका दर्शन आपके दर्शनके समान क्यों माना जाता है; इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है ।

भगवान्ने कहा—राजन् ! मैं ही पीपलके वृक्षके रूपमें रहकर तीनों लोकोंका पालन करता हूँ । जहाँ पीपलका वृक्ष नहीं है, वहाँ मेरा वास नहीं है । जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पीपल भी रहता है । जो मनुष्य भक्तिभावसे पीपल वृक्षकी पूजा करता है, उसके द्वारा मेरी ही पूजा होती है और जो क्रोध करके पीपलपर प्रहार करता है, वह वास्तवमें मुझको ही अपने प्रहारका लक्ष्य बनाता है; इसलिये पीपलकी सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिये, उसको काटना नहीं चाहिये । व्रतका पारण, सरलता, देवताओंकी सेवा, गुरु-शुश्रूषा, पिता-माताकी सेवा, अपनी स्त्रीको संतुष्ट रखना, गृहस्थ-धर्मका पालन करना, अतिथि-सेवामें लगे रहना, वेदका अध्ययन, ब्रह्मचर्यका पालन, आहवनीयादि तीन प्रकारकी अग्नियाँ—ये सब परम पावन सनातन तीर्थ कहे जाते हैं । इन सबका मूल धर्म है—ऐसा जानकर इनमें मन लगाओ तथा तीर्थोंमें जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे धर्मकी वृद्धि होती है । दो प्रकारके तीर्थ होते हैं—स्वावर और जङ्गम । स्थावर तीर्थसे जङ्गम तीर्थ श्रेष्ठ है;

बर्षोंकि उससे ज्ञानकी प्राप्ति होती है। इस लोकमें पुण्यकर्मके अनुष्ठानसे विशुद्ध हुए पुरुषके हृदयमें सब तीर्थ बास करते हैं, इसलिये वह तीर्थस्वरूप कहलाता है। गुरुरूपी तीर्थसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिये उससे बड़कर कोई तीर्थ नहीं है। ज्ञानतीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्मतीर्थ सनातन है।

षाष्टुन्दन। समस्त तीर्थोंमें भी क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ है। क्षमाशील मनुष्योंको इस लोक और परलोकमें भी सुख मिलता है। कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार, अथवा गाली दे या डाँट बताये। इन सभी परिस्थितियोंमें जो क्षमाशील बना रहता है, वह तीर्थ कहलाता है। क्षमा ही यश, धान, यश और मनोनिग्रह है। अहिंसा, धर्म, इन्द्रियोंका संयम और दया भी क्षमाके ही स्वरूप हैं। क्षमासे ही सारा जगत् टिका हुआ है; अतः जो ब्राह्मण क्षमावान् है वह देवता कहलाता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। क्षमाशील मनुष्यको स्वर्ग, यश और मोहाकी प्राप्ति होती है; इसलिये क्षमावान् पुण्य साधु कहलाता है। राजन्! आत्मरूप नवी परम पावन तीर्थ है, यह सब तीर्थोंमें प्रधान है। आत्माको सदा यज्ञरूप माना गया है। स्वर्ग, मोहा—सब आत्माके ही अधीन हैं। जो सदाचारके पालनसे अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अनुलनीय शीतलता आ गयी है—ऐसे ज्ञानरूपी जलमें निरन्तर स्नान करनेवाले पुरुषको केवल पानीसे भरे हुए तीर्थको बया आवश्यकता है।

सुधिष्ठिरने कहा—मगधन्! अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित्त बताइये, जो करनेमें सुगम और समस्त पापोंका नाश करनेवाला हो।

भगवान्ने कहा—राजन्! मैं तुम्हें अत्यन्त गोपनीय प्रायश्चित्त बता रहा हूँ। यह अघर्ममें दक्षि रत्नेवाले पापाचारी मनुष्योंको सुनाने योग्य नहीं है। किसी पवित्र ब्राह्मणको सामने देखनेपर सहसा गैरा स्मरण करे और 'नमो ब्रह्मण्यदेवाय' कहकर भगवद्-सुद्धिसे उन्हें प्रणाम करे।

इसके बाद अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हुए ब्राह्मणदेवताकी परिषदा करे, ऐसा करनेसे ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और वे उस प्रणाम करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण पापोंका नाश कर देना हैं। जो मनुष्य सूर्यग्रहणके समय धूर्धुराहीनो नरोके तटपर जाकर भेरे मन्दिरके निचट दक्षिणार्धमें शङ्खके जलसे अपना कपिसा गाणके तीर्थका स्वर्ग कराये हुए जलसे एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके समस्त तीर्थ पाप एक ही क्षणमें नष्ट हो जाते हैं। जो धूर्धुराहीनो जपवात करके पञ्चगव्यका पान करता है, उसके भी पूर्वाशुभित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकारको प्रतिपास असन-असण मन्त्र पढ़कर संघट्ट रिचे हुए ब्रह्मरूचका पान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं ब्रह्मरूच और उसके पाठका वर्णन करता हूँ, सुनो। पलाता या कमलके पतेमें अपना हाथ या सोनेके बने हुए बर्तनमें ब्रह्मरूच रखकर पीना चाहिये। ये ही उसके उपयुक्त पात्र हैं। (ब्रह्मरूचकी विधि इस प्रकार है—) शायत्री-मन्त्र पढ़कर गौदा मूत्र, 'मन्त्रद्वारा०' इत्यादि मन्त्रसे गौदा गोबर, 'अप्यायव०' इस मन्त्रसे गायत्रा रूप, 'वधिशाल्यः०' इस मन्त्रसे बहो, 'तिरोर्ध्वं गुरुम्०' इस मन्त्रसे धी, 'दिवस्य स्या०' आदि मन्त्रसे द्वारा बुनना जल तथा 'आपो हिष्टा मयो०' इस ऋचाके द्वारा जोषा आटा लेकर सबको एकमें मिला दे और प्रज्वलित अग्निमें ब्रह्मके उद्देशसे विधिपूर्वक हवन करके प्रणवका उच्चारण करते हुए उपसृष्ट वस्तुओंका आनीदन और मगधन करे। फिर प्रणवका उच्चारण करके जो पात्रमेंसे निकालकर हाथमें ले और प्रणवका पाठ करते हुए ही उसे पी जाय। इस प्रकार ब्रह्मरूचका पान करनेसे मनुष्य बड़े-बड़े पापों को जो उन्नी प्रकार छुटकारा पा जाता है, अन्ते तीर्थ अपनी कंचनसे पुष्प हो जाता है। जो मनुष्य उसके पीनर बंधनर अपना सूर्यके सामने इष्टि रखकर 'मंत्र नः०' इस ऋचाके एक घण्टाका या ऋचासंहिताका पाठ करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मूममें चित्त सागाधर प्रतिदिन भेरे नुन (पुण्यगुणत) का पाठ करता है, वह जलसे निर्मल रहनेवाले कमलके पतेकी तरह कभी भी पानी मिल नहीं होता।

उत्तम और अधम ब्राह्मणोंके लक्षण, भक्त, गौ, ब्राह्मण और पीपलकी महिमा तथा ब्राह्मणत्वसे गिरानेवाले कर्म

युधिष्ठिरने पूछा—देवेश्वर ! जिनके भाव शुद्ध हों, वे पुण्यात्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा ब्राह्मणको अपने कर्ममें सफलता न मिलनेका क्या कारण है—यह बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान्ने कहा—पाण्डुनन्दन ! ब्राह्मणोंका कर्म क्यों सफल होता है और क्यों निष्फल—इन बातोंको मैं क्रमशः बतता हूँ, सुनो । यदि हृदयका भाव शुद्ध न हो तो त्रिदण्ड धारण करना, मौन रहना, जटा रखाना, माथा मुँडाना, वल्कल या मृगचर्म पहनना, व्रत और अभिषेक करना, अग्निमें आहुति देना, गृहस्थ-धर्मका पालन करना, स्वाध्यायमें संलग्न रहना और अपनी स्त्रीका सत्कार करना—ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं । जो क्षमाशील, दमका पालन करनेवाला, प्रोधरहित तथा मन और इन्द्रियोंको जीतनेवाला हो, उसीको मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूँ । उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलानेवाले लोग हैं, वे सब शूद्र माने गये हैं । जो अग्निहोत्र, व्रत और स्वाध्यायमें लगे रहनेवाले, पवित्र, उपवास करनेवाले और जितेन्द्रिय हैं उन्हीं पुरुषोंको देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं । केवल जातिसे किसीकी पूजा नहीं होती, उत्तम गुण ही कल्याण करनेवाले होते हैं । मनःशुद्धि, क्रियाशुद्धि, कुलशुद्धि, शरीरशुद्धि और वाक्-शुद्धि—इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि यतायी गयी है । इन पाँचों शुद्धियोंमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़कर है । हृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं । जो ब्राह्मण अग्निहोत्रका त्याग करके खरीद-बिक्रीमें लग गया है, वह वर्णसंकरताका प्रचार करनेवाला और शूद्रके समान माना गया है । जिसने वैदिक श्रुतियोंको भुला दिया है तथा जो खेतमें हल जोतता है, अपने वर्णके विरुद्ध काम करनेवाला वह ब्राह्मण वृषल माना गया है । वृष शब्दका अर्थ है धर्म; उसका जो लय करता है, उसको देवता लोग वृषल मानते हैं । वह चाण्डाल से भी नीच होता है । जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्मगीता आदिके द्वारा मेरी स्तुति न करके किसी शूद्रका स्तवन करता है, वह चाण्डालके समान है । जैसे कुत्तेकी खालमें रक्खा हुआ दूध और कुत्तेका चाटा हुआ हविष्य अशुद्ध होता है, उसी प्रकार वृषल मनुष्यकी बुद्धिमें स्थित वेद भी दूषित हो जाता है । चार वेद, छः अङ्ग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण—ये चौदह विद्याएँ हैं । तीनों लोकोंके कल्याणके लिये इनका आविर्भाव हुआ है, अतः शूद्रको इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये । शूद्रके सम्पर्कमें आनेवाली सभी

वस्तुएँ अपवित्र हो जाती हैं । इस संसारमें तीन अपवित्र और पाँच अमेध्य हैं । कुत्ता, शूद्र और श्वपाक (चाण्डाल)—ये तीन अपवित्र होते हैं तथा अश्लील गायक, मुर्गा, जिसमें वध करनेके लिये पशुओंको बाँधा जाय वह खंभा, रजस्वला स्त्री और वृषल जातिकी स्त्रीसे व्याह करनेवाला द्विज—ये पाँच अमेध्य माने गये हैं, इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिये । यदि ब्राह्मण इन आठोंमेंसे किसीका स्पर्श कर ले तो वस्त्रसहित जलमें प्रवेश करके स्नान करे । जो मनुष्य मेरे भक्तोंका शूद्र-जातिमें जन्म होनेके कारण अपमान करते हैं, वे करोड़ों वर्षतक नरकोंमें निवास करते हैं; अतः चाण्डाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान् पुरुषको उसका अपमान नहीं करना चाहिये । अपमान करनेसे मनुष्यको रीरव नरकमें गिरना पड़ता है । जो मनुष्य मेरे भक्तोंके भक्त होते हैं, उनपर मेरा विशेष प्रेम होता है । इसलिये मेरे भक्तके भक्तोंका विशेष सत्कार करना चाहिये । मुझमें चित्त लगानेपर कौड़े, पक्षी और पशु भी ऊर्ध्वगतिकी ही प्राप्त होते हैं, फिर ज्ञानी मनुष्योंकी तो बात ही क्या है । मेरा भक्त शूद्र भी यदि पत्र, पुष्प, फल अथवा जल ही अर्पण करे तो मैं उसे सिरपर धारण करता हूँ । जो ब्राह्मण सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें विराजमान मुझ परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे पूजन करते हैं, वे मेरे सायुज्यको प्राप्त होते हैं । युधिष्ठिर ! मैं अपने भक्तोंका हित करनेके लिये ही अवतार धारण करता हूँ, अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रहका पूजन करना चाहिये । जो मनुष्य मेरे अवतार-विग्रहोंमेंसे किसी एककी भी भक्ति-भावसे आराधना करता है, उसके ऊपर मैं निःसंदेह प्रसन्न होता हूँ । मिट्टी, ताँबा, चाँदी, स्वर्ण अथवा मणि एवं रत्नोंकी मेरी प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिये । इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियोंकी पूजासे दसगुना अधिक पुण्य समंभना चाहिये । यदि ब्राह्मणको विद्याकी, क्षत्रियको युद्धमें विजयकी, वैश्यको धनकी, शूद्रको सुखरूप फलकी तथा स्त्रियोंको सब प्रकारकी कामना हो तो ये सब मेरी आराधनासे अपने सभी मनोरथोंको प्राप्त कर सकते हैं ।

युधिष्ठिरने पूछा—देवेश्वर ! आप किस तरहके शूद्रोंकी पूजा नहीं स्वीकार करते ?

भगवान्ने कहा—राजन् ! जो व्रतका पालन करने-वाला और मेरा भक्त नहीं है, उस शूद्रकी की हुई पूजाको मैं

कुत्ता पकानेवाले घाण्डालकी की हुई समझकर त्याग देता हूँ। गौ, ब्राह्मण और पीपलका वृक्ष—ये तीनों देववृक्ष हैं; इन्हें मेरा और भगवान् शंकरका स्वरूप समझना चाहिये। मेरे भक्त पुरुषको उचित है कि वह इन तीनोंका कभी अपमान न करे; क्योंकि अपमानित होनेपर ये मनुष्यकी सात पीढ़ियोंको भस्म कर डालते हैं। युधिष्ठिर! मेरे स्वरूप होनेके कारण ये मनुष्यका उद्धार करनेवाले हैं, इसलिये तुम यत्नपूर्वक इनकी पूजा किया करो।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्! मनुष्य ब्राह्मण-शरीरसे ही शूद्र कैसे हो जाता है, उसका ब्राह्मणत्व किस प्रकार नष्ट हो जाता है—यह बतानेकी कृपा करे।

भगवान्ने कहा—राजन्! जो ब्राह्मण व्योक्त केवल

हुंके जन्मे स्नान करता है तथा जो अपने ही कर्मान् राजाके आश्रयमें रहकर भोजिका चमका है, ऐसा ब्राह्मण वेदका पारंगत विद्वान् होनेपर भी उसे शरीरसे ब्राह्मणको प्राप्त हो जाता है। जो किसी बड़े बन्धके अथवा गतमे लगातार ब्राह्मण व्योक्त रह जाता है, वह ब्राह्मणको निन्देह शूद्र हो जाता है। जो ब्राह्मण काममे भोगित होकर शूद्र-जातिसे रहोगे संतान उत्पन्न करता है, उसके शरीरका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर! जो लोग दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर भी ऊपर जाये हुए बड़े मूर्खाने घसकर उसका नाश कर डालते हैं, उनके लिये मुझे बड़ा शोक होता है; इसलिये जो ब्राह्मण मूर्खमें प्रेम रखता हो, उसे मद्य प्रभारके अपत्यद्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिये जो उसे ब्राह्मणत्वसे छिन्न करनेवाला हो।

भगवान्के उपदेशका उपसंहार और उनका द्वारकागमन

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्! यदि कोई ब्राह्मण परदेश गया हो और वहाँ कातकी प्रेरणासे उसका शरीर छूट जाय तो उसको प्रत-क्रिया (अन्वेषिष्ठ-संस्कार) किस प्रकार सम्भव है?

भगवान्ने कहा—राजन्! यदि किसी अग्निहोत्री ब्राह्मणकी इस प्रकार मृत्यु हो जाय तो प्रेतकल्पमें बताने अनुसार उसकी काष्ठमयी प्रतिमा बनवाने चाहिये। वह काष्ठ पलाशका ही होना उचित है। मनुष्यके शरीरमे तीन सौ काष्ठ हड्डियाँ बतानी गयी हैं। उन सबकी शास्त्रोक्त रीतिमे कल्पना करके उस प्रतिमाका बाहू करना चाहिये।

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन्! जो भक्त तीर्थ-यात्रा करनेमें असमर्थ हों, उन सबको तारनेके लिये कृपया किसी विधायक तीर्थका धर्मानुसार धर्षण कीजिये।

भगवान्ने कहा—राजन्! सामवेदका गायन करनेवाले विद्वान् बहते हैं कि सत्य सब तीर्थोंकी पवित्र करनेवाला है। सत्य बोलना और किसी जीवकी हानि न करना—ये तीर्थ कहलाते हैं। सत्य, दया, शीत, धोड़में संतोष करना—ये सद्गुण भी तीर्थरूप ही हैं। पतिव्रता शरीर, संतोषी ब्राह्मण और ज्ञानकी भी तीर्थ बहते हैं। मेरे और शंकरके भवन, संन्यासी, विद्वान् और दूसरोंको शरण देनेवाने पुरुष भी तीर्थ हैं। जीवोंको अमय-दान देना भी तीर्थ ही बहता है। मैं तीनों लोकोंमें उद्देगम्य हूँ। दिन हो या रात, भूमें कभी

किसीसे भी भय नहीं होता। बेधता, डैप और रासलोभि भी मैं नहीं करता। परंतु शूद्रके मुण्डे जो बेरखा उच्चाराण होता है, उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। इसलिये शूद्रको मेरे नामका भी प्रणवके साथ नहीं उच्चाराण करना चाहिये; क्योंकि बेरवेना विद्वान् इन सांगारमें प्रणवको सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं। शूद्र भूममें भस्मि रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवा करें—यही उनका परम धर्म है। द्विजोंकी सेवासे ही वे परम ब्रह्मणके भागी होते हैं। इनके लिये उनके उद्धारका दूसरा कोई उपाय नहीं है। राग, ईष्य, मोह, बडोरता, क्रूरता, लज्जा, अशिक्षित बालक के समान, अधिक अभिमान, शरत्कारण अभाव, मूढ़ भोगिता, निद्रा करना, चुगली खाना, अत्यन्त सोम करना, हिरा, घोरी, मूढ़-मूढ़ अथवा लपाना, घोरा देना, कोप, सामक, मूर्खता, नास्तिकता, भय, आसक्त्य, अर्थावज्ञा, इमान्ता, दम्भ, जदना, बपट और अज्ञान—ये सामान दुर्गुण शूद्रके पैदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मर्षिने गुरीरी उत्पन्न करके उनके लिये द्विजोंकी सेवाएण धर्मका उन्नीत किया। द्विजोंकी पवित्रमे शूद्रके सामय मात्र नष्ट हो जाते हैं। शूद्र भी यदि पवित्रपुरुषके मूर्ख पद, पुत्र, पत्न अथवा जप अर्पण करता है तो मैं उसके पवित्रपुरुषके दिने हुए उन्नीतको सादर शोक चढ़ाता हूँ। सामुं पारंगते दुःख होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है, तो वह अपने सामुं पारंगते छुटकारा पा जाता है। विद्या और विन्दने

सम्पन्न तथा वेदोंके पारंगत विद्वान् होनेपर भी जो ब्राह्मण मुझमें भक्ति नहीं करते, वे चाण्डालके समान हैं। जो द्विज मेरा भक्त नहीं है उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि-सत्कार—ये सब व्यर्थ हैं।

पाण्डुनन्दन ! जब मनुष्य समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियोंमें एवं मित्र अथवा शत्रुमें समान दृष्टि कर लेता है, उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है। क्रूरताका अभाव, अहिंसा, सत्य, सरलता तथा किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना—यह मेरे भक्तोंका व्रत है। जो मनुष्य मेरे भक्तको श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है, वह चाण्डाल ही क्यों न हो, उसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है। फिर जो साक्षात् मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझमें ही लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणोंका कौतूहल करते रहते हैं, वे यदि लक्ष्मीसहित मेरी विधिवत् पूजा करते हैं तो उनकी सद्गतिके विषयमें क्या कहना है। अनेकों हजार वर्षोंतक तपस्या करनेवाला मनुष्य भी उस पदको नहीं प्राप्त होता, जो मेरे भक्तोंको अनायास ही मिल जाता है। इसलिये राजेन्द्र ! तुम सदा सजग रहकर निरन्तर मेरा ही ध्यान करते रहो; इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और तुम परम पदका साक्षात्कार कर सकोगे। जो व्यर्थकी बातें बकते रहते हैं वे मेरे भक्त नहीं, शूद्र हैं; किंतु जो वास्तवमें मेरे भक्त हैं, वे जन्मसे शूद्र होनेपर भी वास्तवमें शूद्र नहीं हैं। भगवद्भक्त ब्राह्मणके ही समान माने गये हैं। जो द्वादशाक्षर मन्त्रके तत्त्वका ज्ञाता और निरन्तर पञ्चयाम सेवाविधिको जाननेवाला है, वह उत्तम भक्त है। जो होता बनकर ऋग्वेदके द्वारा, अथर्व्यु होकर यजुर्वेदके द्वारा, उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेदके द्वारा तथा अथर्ववेदीय द्विजोंके रूपमें जो अथर्ववेदके द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं, वे भगवद्भक्त माने गये हैं। यज्ञ वेदोंके अधीन हैं और देवता यज्ञ तथा ब्राह्मणोंके अधीन होते हैं, इसलिये ब्राह्मण देवता हैं।

किसीका सहारा लिये बिना कोई ऊँचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रयका सहारा लेना चाहिये। देवतालोग भगवान् रुद्रके आश्रयमें रहते हैं, रुद्र ब्रह्माजीके आश्रित हैं और ब्रह्माजी मेरे आश्रयमें रहते हैं; किंतु मैं किसीके आश्रित नहीं हूँ। मेरा आश्रय कोई नहीं है। मैं ही सबका आश्रय हूँ। राजन् ! इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी बातें मैंने तुम्हें बतायी हैं; क्योंकि तुम धर्मके प्रेमी हो। अब तुम इस उपदेशके ही अनुसार आचरण करो। यह पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेदके समान मान्य है। जो मेरे वताये हुए इस वंणव-धर्मका प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके

धर्मकी वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल। साथ ही उसके समस्त पापोंका नाश होकर परम कल्याणका विस्तार होगा। यह प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायक, पापनाशक और अत्यन्त उत्कृष्ट है। सभी मनुष्योंको, विशेषतः श्रोत्रिय विद्वानोंको श्रद्धाके साथ इसका श्रवण करना चाहिये। जो मनुष्य भक्ति-पूर्वक इसे सुनाता और पवित्रचित्त होकर सुनता है, वह निश्चय ही मेरे सायुज्यको प्राप्त होता है। मेरी भक्तिमें तत्पर रहनेवाला जो भक्त पुरुष श्राद्धमें इस धर्मका श्रवण करता है, उसके पितर इस ब्रह्माण्डके प्रलय होनेतक सदा तृप्त बने रहते हैं।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! साक्षात् विष्णु-स्वरूप, जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णके मुखसे भागवत-धर्मोंका श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंगपर विचार करते हुए ऋषि और पाण्डवलोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवान्को प्रणाम किया। धर्मनन्दन युधिष्ठिरने तो बारंबार गोविन्दका पूजन किया। देवता, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, गन्धर्व, अप्सराएँ, ऋषि, महात्मा, गुह्यक, सर्प, महात्मा बालखिल्य, तत्त्वदर्शी योगी तथा पञ्चयाम उपासना करनेवाले भगवद्भक्त पुरुष, जो अत्यन्त उत्कृष्ट होकर उपदेश सुननेके लिये पधारे थे, इस परम पवित्र वंणव-धर्मका उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाम एवं पवित्र हो गये। सबमें भगवद्भक्ति उमड़ आयी। फिर उन सबने भगवान्के चरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनके उपदेशकी प्रशंसा करके कहा—‘भगवन् ! अब हम द्वारकामें पुनः आप जगद्गुरुका दर्शन करेंगे।’ यों कहकर सब ऋषि प्रसन्नचित्त हो देवताओंके साथ अपने-अपने स्थानको चले गये। उनके चले जानेपर भगवान् श्रीकृष्णने सात्यकिसहित दारुकको याद किया। सारथि दारुक पास ही बैठा था, उसने निवेदन किया—‘भगवन् ! रथ तैयार है, पधारिये।’ यह सुनकर पाण्डवोंका मुँह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर आँसुभरे नेत्रोंसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी ओर एकटक देखने लगे, किंतु अत्यन्त दुखी होनेके कारण कुछ बोल न सके। भगवान् कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी-से हो गये तथा उन्होंने कुन्ती, धृतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर, द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मन्त्रियोंसे बिदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्रसहित उत्तराकी पीठपर हाथ फेरा और आशीर्वाद दे वे उस राजभवनसे बाहर निकल आये। फिर शंभ्य, सुग्रीव, मेघपुत्र और बलाहक नामवाले चार घोड़ोंसे जुते हुए अपने रथपर सवार हो गये। उस समय कुरु देशके राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवान्के पीछे-पीछे स्वयं भी रथपर जा बैठे और दारुकको सारथिके स्थानसे

हटाकर उन्होंने घोड़ोंकी बागडोर अपने हाथमें ले ली। फिर अर्जुन भी रथपर आरढ़ हो स्वर्गदण्डयुक्त विद्यालय खंडर हाथमें लेकर दाहिनी ओरसे भगवान्के मस्तकपर हवा करने



लगे। इसी प्रकार महाबली भीमसेन भी रथपर जा चढ़े और भगवान्के ऊपर छत्र लगाये लड़े हो गये। वह छत्र तो

ब्रह्मानियोंमें घुसत तथा दिव्य मामामोंमें गुप्तोचित था। उगता बंडा बैलुपं मणिजा बना हुआ था तथा सोनेकी भाँसे उलकी सोमा बड़ा रथो थी। नहुन और गहदेव भी अपने हाथोंमें सकेर खंडर लिये रथपर सवार हो गये और भगवान्के ऊपर झुलाने लगे। इस प्रकार द्रुपिष्टि, भीम, अर्जुन, नहुन और सटदेवने धीहृष्णका अनुसरण किया। तीन योजन (अर्थात् चौबीस गोन) तक जाने आनेके बाद भगवान् धीहृष्णने अपने घरफोंमें पड़े हुए पाण्डवोंको अपने लगाकर बिदा किया और स्वयं द्वारकाकी ओर लगे। इस प्रकार भगवान्को प्रणाम करके जब पाण्डव घर लौटे तो सदा धर्ममें तल्वर रहकर बचिता आदि शीर्षका खान करने लगे। भगवान् धीहृष्णके मघनोंकी बारंबार पाह बरहे के मन-ही-मन उनकी सराहना करते थे। धर्मात्मा द्रुपिष्टिद्वारा भगवान्को अपने हृदयमें बिराजमान करके उन्हीके भजनमें लग गये, उन्हीका स्मरण करने लगे और योगयुक्त होकर भगवान्का यजन करते हुए उन्हीके बराबर हो गये। जनमेजय! इस प्रकार प्राचीन वेदकथमेंका यह उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया। यह परम पवित्र और पापोंका नाश करनेवाला है। भगवान् विष्णुके आराधने हुए इस धर्मका निरन्तर ध्यान करते रहो। इसीसे तुम द्वारका कोई उपाय नहीं है।

सब तथा दूसरी बहुत-सी रिजपों गान्धारीकी सेवामें बासीकी भाँति समी रहती थी। राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन अपने भाइयोंको सिखा देते रहते थे कि 'युतराष्ट्रका अपने पुत्रोंसे वियोग हुआ है। युगसोग कभी ऐसा बर्ताव न करना, जिससे इनके मनमें तनिक भी दुःख हो।' धर्मराजके ये अच्युत वचन सुनकर भीमसेनकी छोड़ अन्य सभी पाण्डव उनकी आज्ञाका विशेषरूपसे पालन करते थे। धीरवर भीमसेनके हृदयसे कभी भी यह बात दूर नहीं होती थी कि जुएके समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था, वह युतराष्ट्रकी ही छोटी बुद्धिका परिणाम था।

इस प्रकार पाण्डवोंसे भलीभाँति सम्मानित होकर अम्बिकानन्दन राजा युतराष्ट्र पूर्ववत् ऋषियोंके साथ गोष्ठी करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। वे ब्राह्मणोंको देनेयोग्य श्रेष्ठ वस्तुओंका दान करते और कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर उनके सब कार्योंमें सहयोग देते थे। युधिष्ठिरमें कूरताका नाम भी नहीं था। वे सदा प्रसन्न रहते तथा अपने भाइयों और मन्त्रियोंसे कहा करते थे कि 'राजा युतराष्ट्र मेरे और आपत्तियोंके माननीय हैं। जो इनकी आज्ञामें रहेगा, वह मेरा सुदृढ़ है और जो इनके विपरीत आचरण करेगा, वह मेरे दृष्टका भागी होगा।' पिता-पितामह आदिकी मृत्यु-तिथि आनेपर तथा पुत्रों और हितैषियोंके धाड़कर्ममें महामना राजा युतराष्ट्र जितना-धन लक्ष करना चाहते थे, उतना ही करते थे। वे पूजनीय ब्राह्मणोंको उनकी योग्यताके अनुसार बहुत-सा धन देते थे और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल-सहदेव उनका प्रिय करनेकी इच्छासे सब कामोंमें उनका साथ देते थे। उन्हें सदा इस बातकी चिन्ता बनी रहती थी कि पुत्र-पौत्रोंके कष्टसे पीड़ित हुए सूढ़े राजा युतराष्ट्र हमारी ओरसे कोई शोकका कारण पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दें। अपने पुत्रोंकी जीवित्वावस्थामें उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे, वे अब भी उन्हें मिसते रहें—इस बातका पाण्डवोंने पूरा प्रबन्ध किया था। इस प्रकारके शौच और बर्तावसे पुरत होकर युधिष्ठिर आदि पाँचों भाई युतराष्ट्रकी आज्ञाके अधीन रहते थे। युतराष्ट्र भी उन्हें परम विनीत, अपनी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले और शिष्यभावसे सेवामें संलग्न देखकर पिताकी ही भाँति उनसे

स्नेह रखते थे। गान्धारी देवीने भी अपने पुत्रोंके निमित्त माना प्रकारके धाड़कर्मोंका अनुष्ठान करते ब्राह्मणोंकी उनकी इच्छाके अनुसार धन दान किया और ऐसा करने से पुत्रोंके ऋणसे मुक्त हो गये।

धर्मापराओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार अपने भाइयों-सहित राजा युतराष्ट्रके आबर-सत्कारमें लगे रहे। युतराष्ट्रने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा, जो उनके मनको अप्रिय लगनेवाला हो। पाण्डवोंका सद्बर्ताव देखकर अम्बिकानन्दन युतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे तथा राजा युवराजकी पुत्री गान्धारी देवी भी उनपर अपने सारे पुत्रों-जैसा स्नेह करती थीं। राजा युतराष्ट्र अथवा तपस्विनी गान्धारी देवी छोटा-बड़ा जो भी काम करनेके लिये बहती, उनकी आज्ञाकी शिरोधार्य करने युधिष्ठिर वह सारा कार्य पूर्ण करते थे। इसी राजा युतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मन्त्रबुद्धि पुत्र कुर्बोयनको माह करने पछताया करते थे। प्रतिदिन लवरे उठकर स्नान, संभ्या एवं पापकी-अपने निवृत्त होकर वे पाण्डवोंको तप-विजयी होनेका आशीर्वाद दिया करते थे। ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर अग्निमें हवन करनेके पश्चात् सदा यह शुभ कामना करते थे कि 'पाण्डुके पुत्र बीमसेनकी हों।' राजा युतराष्ट्रकी पाण्डवोंके बर्तावको जितनी प्रशंसा होती थी, उतनी उन्हें कभी अपने पुत्रोंसे भी नहीं प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर अपने सद्बर्तावके कारण ब्राह्मण, शीघ्र, वंश और शूद्र—सभीके प्रिय हो गये थे। युतराष्ट्रके पुत्रोंने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी, उसको भूलकर वे उनकी सेवामें संलग्न रहते थे। युधिष्ठिरके ममते कोई भी मनुष्य कभी राजा युतराष्ट्र और कुर्बोयनके अनुचर बनानेकी चर्चा नहीं करता था। राजा युतराष्ट्र, गान्धारी और विदुरकी आज्ञातत्त्व युधिष्ठिरके धर्म और शूद्र व्यवहारके विषय प्रसन्न थे; किन्तु भीमसेनके बर्तावसे उन्हें संशय नहीं था। यद्यपि भीमसेन भी युधिष्ठिरकी आज्ञाके अनुसार ही चलते थे, तथापि युतराष्ट्रकी देखकर उनके मनमें सदा ही कुर्बोयन हो जाया करती थी। राजा युधिष्ठिरकी युतराष्ट्रके अनुचर बर्ताव करते देख से स्वयं भी ऊपरसे उनके अनुचर ही बनते थे, तथापि उनका हृदय युतराष्ट्रने विमुक्त ही रखा था।

गान्धारीसहित धृतराष्ट्रकी वनमें जानेके लिये तैयारी और युधिष्ठिरका शोक

दशमपायनजी कहते हैं—जननेजय ! राजा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्रमें जो पारस्परिक प्रेम था, उसमें राज्यके लोगोंके कमी कोई अन्तर आता नहीं देखा; परंतु भीमसेन गुणरतिसे धृतराष्ट्रको अश्रिय लगनेवाले काम किया करते थे। वे अपने द्वारा नियुक्त किये हुए पुरुषोंसे उनकी आज्ञा भी मङ्गल करा दिया करते थे। एक दिनकी बात है, भीमसेन अमर्षमें भरकर धृतराष्ट्र और गान्धारीको सुनाते हुए अपने मित्रोंके बीचमें इस प्रकार कठोर वचन कहने लगे—‘माइयो ! मेरी भुजाएँ परिषदके समान सुदृढ़ हैं। मैंने ही उस अंधे राजाके समस्त पुत्रोंको अमलोकका अतिथि बनाया है। देखो, ये हैं मेरे दोनों भुजदण्ड, जो परिषदको भी मारत करनेवाले और दुर्दण्ड हैं। इन्हींके बीचमें पड़कर धृतराष्ट्रके पुत्रोंका संहार हुआ है। भीमसेनको यह बातेंके समान कसक पैदा करनेवाली बात सुनकर राजा धृतराष्ट्रको बड़ा खेद हुआ। समयके उलट-फेरको समझने और समस्त धर्मोंको जाननेवाली बुद्धिमती गान्धारी देवीने भी इन कठोर वचनोंको सुना था। उस समयतक उन्हें राजा युधिष्ठिरके आश्रयमें रहते पंद्रह वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस दिन भीमसेनके वचनकी वाणीसे व्यथित होकर धृतराष्ट्रको बड़ा दुःख हुआ; किंतु युधिष्ठिरको इस बातकी जानकारी न हो सकी। अर्जुन, दुर्गा, यगस्विनी द्रौपदी और धर्मको जाननेवाले नकुल-सहदेव—ये सबलोग धृतराष्ट्रके मनोजुकूल ही बर्ताव करते थे, कभी कोई अश्रिय बात नहीं कहते थे।

तदनन्तर धृतराष्ट्रने अपने मुहूर्तोंको सुलाकर उनका पूरा सम्मान किया और आँसुओंमें आँसू भरकर गद्गद वाणीमें कहा—‘मित्रो ! आपलोगोंको यह मालूम ही है कि शौर्यका नाम किस प्रकार हुआ है। यह सब मेरे ही अमराश्रयका फल है। दुर्योधनकी बुद्धिमें दुष्टता भरी थी, वह अपने जाति-माइयोंका मय बढ़ानेवाला था; तो भी मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने उसे शौर्यको राक्षसद्वर अमिषिष्ठ कर दिया। भगवान् श्रीकृष्णकी अर्थमयी बातें अनसुनी कर लीं। पुत्रके स्नेहसे मेरी बुद्धि मारी गयी थी। उस अवस्थामें मनीषी पुरुषोंने मुझे यह हितकारक बात मुझायी थी कि दुष्टबुद्धि वाली दुर्योधनको उसके मन्त्रियोंसहित मार डालना चाहिये; किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। बिहुन, भीष्म, द्रौप, द्रुपदाचार्य और भगवान् व्यासने तो मुझे पद-पदपर नैरा मलाह दी। सञ्जय और गान्धारीने भी बहुत सम-साया। परंतु मैंने किसीकी बातपर ध्यान नहीं दिया। इससे

मुझे बड़ा परचात्ताप ही रहा है। महात्मा पाण्डव गुणवान् थे, तथापि उनके वास-वादीकी सम्पत्ति भी उन्हें लौटाकर न दे सका। इस तरह मेरी की हुई हजारों भूलें मेरे हृदयमें संक्षिप्त हैं, जो इस समय हाँटेके समान कसक रही हैं। विशेषतः आज पंद्रह वर्षोंके बाद मेरी आँखें खुली हैं। मैं अपने किये हुए पापको शुद्धिके लिये नियमपूर्वक रहकर कभी चौथे और कभी आठवें समय केवल भूख मिटानेकी इच्छासे अन्न ग्रहण करता हूँ, इस बातको केवल गान्धारी ही जानती है। अन्य सब लोगोंको यही मालूम है कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ। युधिष्ठिरके मयसे ही लोग मेरे पाल आया करते हैं। मैं नियम-मालनके बहाने मृगशाला पहनकर कुशासनदर आसीत हो जपमें लगा रहता हूँ और मूर्खित शयन करता हूँ। यगस्विनी गान्धारी देवीका भी यही हाल है। हम दोनोंके जो पुत्र मारे गये हैं, किंतु उनके लिये मुझे दुःख नहीं है; क्योंकि वे अश्रिय-धर्मको जानते थे और उनके अनुसार ही उन्होंने युद्धमें प्राण-त्याग किया है।’

अपने मुहूर्तोंसे ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिरसे बोले—‘दुर्गात्मन् ! तुम्हारा कल्याण हो, मेरी यह बात सुनो। तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहाँ बड़े मुझसे दिन पित्तये हैं, पड़े-बड़े दान किये हैं और अनेकों दार श्राद्ध-धर्मका अनुष्ठान किया है। द्रौपदीके साथ अत्याचार करके तुम्हारे ऐश्वर्यको छीन लेनेवाले मेरे शूरकर्मी पुत्र अश्रिय-धर्मके अनुसार युद्धमें मारे गये हैं। अब उनके लिये कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती; क्योंकि वे शस्त्र-धारियोंको मिलनेवाले उत्तम मौकोंको प्राप्त हुए हैं। अब तो मुझे और गान्धारीको अपने हितके लिये पुण्यकर्मका अनुष्ठान करना है, अतः इसके लिये तुम हूँ अनुमति दो। तुम्हारी अनुमति मिल जानेपर मैं अगममें चला जाऊँगा और यहाँ गान्धारीके साथ और पुत्र दत्तक वस्त्र धारण करके तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ निवास करूँगा। वनमें दायु पीकर अथवा उपवास करके रहूँगा तथा अपनी पत्नीके साथ कठोर तपस्या करूँगा। वेटा ! तुम भी उस तपस्याके उत्तम फलके भागी बनोगे; क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्यके भीतर होनेवाले भले-दुरे सभी कर्मोंके फल-भागी होते हैं।’

युधिष्ठिरने कहा—‘महाराज ! आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुःख उठा रहे थे—यह जानकर अब इस राज्यमें मुझे कौनका भी अस्तमत्ता नहीं होती। मुझे दुर्दृष्टिको चिन्कार

है। मैं इतना प्रमादी और राज्यमें आसक्त हूँ कि आजतक मुझे और मेरे भाइयोंको यह पता ही न सया कि आप दुःखसे पीड़ित और उपवास करनेके कारण अत्यन्त दुर्बल होकर पुष्पोपर शयन कर रहे हैं। ओह! आपने अपने विचारोंको छिपाकर मुझे मूर्खोंके अबतक घोषमें ही डाल रक्खा था; क्योंकि पहले मुझे यह विश्वास बिनाकर कि मैं सुखी हूँ, आप आजतक यह दुःख भोगते रहे। इस राज्यमें, इन भोगोंसे, नाता प्रकारके धनोसे अपना इस मुल-सामग्रीमें मुझे क्या लाभ हुआ, जबकि मेरे ही पास रहकर आपकी इतने दुःख उठाने पड़े। आप ही मेरे पिता, माना और परम गुरु हैं। आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे। ये युधुत्सु आपके औरस पुत्र हैं। इनको या और किसीको, जिते आप उचित समझते हों, राजा बना बीजिते अपना स्वयं इस राज्यका शासन कीजिये; मैं ही बनकी क्या जाऊंगा। पेटाजी! मैं पहलेसे ही अपयशकी आशमें जल चुका हूँ; अब पुनः आप भी मुझे न जलाइये। राजा मैं नहीं, धार हूँ। मैं तो आपकी आत्माके अधीन रहने वाला सेवक हूँ। फिर मैं क्या अनुमति दे सकता हूँ। दुर्योगके अर-रायोंके कारण हमलोगोंके हृदयमें तनिक भी शोध नहीं है। जो कुछ हुआ है, वैसी ही होनहार थी। जैसे दुर्योग आदि आपके पुत्र थे, उसी प्रकार हम भी हैं। मेरे विचारसे गान्धारी और कुन्तीमें कोई अन्तर नहीं है। यदि आप मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो मैं अपनी सींग्ध साकर साथ रहता हूँ—मैं भी आपके पीछे-पीछे चलूँगा। आपके न रहनेपर यह धन-धान्यसे परिपूर्ण समृद्धयन्त पुष्पोका राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता। महाराज! यह सब कुछ आपका ही है। मैं आपके चरणोंपर मानक रखकर प्रार्थना करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइये; हम सब भोग आपके अधीन हैं। यदि सौभाग्यवश मुझे आपकी सेवाका अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिन्ता दूर हो जायगी।

धृतराष्ट्र बोले—बेटा! अब मेरा मन तरस्यामें ही सग रहा है तथा जीवनकी अन्तिम अवसरमें बनकी जाना हमारे कुलके लिये उचित भी है। मैं दीर्घकालतक कुन्ती पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनोंतक मेरी सेवा-शुभ्रपा की। अब मेरी श्रद्धावस्था जा गयी। अब तो मुझे वनमें जानेकी अनुमति देनी ही चाहिये।

धृतराष्ट्रकी यह बात सुनकर धर्मराज सुविधिबन वन में और हाथ जोड़े घुपघुप बंटे रह गये। तब अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने महारामा सन्जय और महारथी इत्यादिवाले

परिषद, इन कारणोंसे मेरा भी पक्का रहा है और मैं दुःखा जाता हूँ।'

इतना बहते-बहते वे सह्या गान्धारीका महाराज मंत्र



निर्जोषी भाँति सो गये। यह देखकर राजा सुविधिबनको बड़ा दुःख हुआ। वे बहने लगे—'ओह! त्रिभजे हजारी हाथियोंके सदान बन था, वे ही राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन-ही होकर स्वर्गका महाराज चिते सो रहे हैं। जितने पुराने क्षीयमेवकी मोक्षमयी अतिवासी बृष्ण बन डाला था, वे ही महाबली राजा आज अबतक मरते पड़े हैं। भूम धरतीको छिन्नकार है। मेरी बुद्धि और विचारों भी छिन्नकार है। त्रिभजे कारण से महाराज इस समय अपने चिते अत्यन्त अवस्थामें सो रहे हैं। यदि राजा धृतराष्ट्र और धर्मराजने गान्धारी देवी कोचन नहीं बनते तो मैं भी इन्हींकी भाँति दरजाम बनें।'

यह बहकर अपने जाना सुविधिबनके हाथमें टटा उन मंत्र धृतराष्ट्रकी छाती और सुभारो धीरे-धीरे छोला। उनके हाथके हाथोंसे राजा धृतराष्ट्रकी दुःखी होयने आकर बोले—'धृतराष्ट्र! करोकर बना हाथ धरते और मुझे दुःखी दुःखान्त हाथोंसे मेरे हाथोंमें ब है। सुनते देखें हाथोंका हाथों बोले हूँ।'

हो रहा है। इधर चार दिनोंसे मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया है, इसीसे मेरे द्वारा कोई चेष्टा नहीं हो पाती। तुमसे अनुरोध करनेके लिये बोलते समय मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है, अतः मैं अचेत-सा हो गया था। तुम्हारे हाथके स्पर्शसे मानो मुझपर अमृत-रस छिड़क दिया है, इससे मुझमें नया जीवन-सा आ गया है।'

धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने बड़े स्नेहके साथ उनके समस्त अङ्गोंपर धीरे-धीरे हाथ फेरा। उनके स्पर्शसे धृतराष्ट्रके शरीरमें नूतन प्राण-सा आ गया और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओंसे युधिष्ठिरको छातीसे लगाकर उनका मस्तक सूँघा। यह करुण दृश्य देखकर अत्यन्त दुःखमग्न हो विदुर आवि सव लोग रो पड़े। कुन्तीके साथ कुण्डलकी अन्य स्त्रियाँ भी शोकग्रस्त हो नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई उन्हें घेरकर खड़ी हो गयीं। तब-नन्तर धृतराष्ट्रने युधिष्ठिरसे फिर कहा—'बेटा! बार-बार

बोलनेसे मेरा जी घबराता है। अतः अब अधिक कष्टमें न डालो। मुझे तपस्या करनेकी अनुमति दे दो।' उन्हें इस प्रकार बात करते देख वहाँ उपस्थित हुए समस्त योद्धा आर्तभावसे हाहाकार करने लगे। धृतराष्ट्रको इस प्रकार उपवास करनेके कारण थके हुए और दुर्बल देखकर युधिष्ठिरने उन्हें गलेसे लगा लिया और अपने शोकाश्रुओंको रोककर कहा—'नरश्रेष्ठ! मुझे इस राज्य तथा जीवनकी इच्छा नहीं है; जिस तरह भी आपका प्रिय हो, वही मैं करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे अपनी कृपाका पात्र समझते हों और यदि मैं आपका प्रिय होऊँ तो मेरी प्रार्थनासे इस समय भोजन कीजिये। इसके बाद आगेकी बात सोचूँगा।' यह सुनकर धृतराष्ट्रने कहा—'बेटा! तुम मुझे वनमें जानेकी अनुमति दे दो तो भोजन करूँ, यही मेरी इच्छा है।' राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासजी वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे।

व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाना और धृतराष्ट्रका उन्हें राजनीतिकी शिक्षा देना

व्यासजीने कहा—युधिष्ठिर! महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं, वैसा ही करो; इसके लिये कुछ विचार न



करो। अब ये बूढ़े हो गये हैं। विशेषतः इनके सभी पुत्र

नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस कष्टको अधिक कालतक नहीं सह सकेंगे। सौभाग्यवती गान्धारी परम विदुषी है, इसीलिये यह महान् पुत्र-शोकको धैर्यपूर्वक सहती चली आ रही है। इस समय मैं भी तुम्हें यही सलाह देता हूँ। मेरी बात मानो और राजा धृतराष्ट्रको वनमें जानेकी अनुमति दे दो, नहीं तो यहाँ रहनेसे इनकी व्यर्थ मृत्यु होगी। तुम इन्हें मौका दो, जिससे ये प्राचीन राजपिपियोंके पथका अनुसरण कर सकें। सम्पूर्ण राजविगण जीवनके अन्तिम भागमें वनका ही आश्रय लेते आये हैं।

अद्भुतकर्मा महामुनि व्यासके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—'भगवन्! आप ही हमारे माननीय और आप ही हमलोगोंके गुरु हैं। इस राज्य और कुलके परम आधार भी आप ही हैं। मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरे पिता हैं। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हैं (मैं इन्हें कैसे किसी बातके लिये आज्ञा दे सकता हूँ)। धर्म तो यही है कि पुत्र ही पिताकी आज्ञाका पालन करे।' युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी व्यासजीने पुनः उनसे कहा—'महाबाहो! तुम्हारा कहना सत्य है। तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गये और अन्तिम अवस्थाको पहुँच चुके हैं; इसीलिये अब मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्याके द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें। तुम इनके शुभकार्यमें विघ्न न डालो। युधिष्ठिर!

राजाधियोंका परम धर्म यही है कि युद्ध अथवा वनमें उनकी विधिपूर्वक मृत्यु हो। तुम्हारे पिता राजा पाण्डुने भी धृतराष्ट्रको गुरुके समान मानकर शिष्यभावसे इनकी सेवा की है। इन्होंने रत्नमय पर्वतसे सुराभिषेक और प्रचुर वसिष्ठासे सम्पन्न अनेकों यज्ञ-यज्ञे यज्ञ किये, पृथ्वीका राज्य भोगा, प्रजाका मलीमांति पालन किया और नाना प्रकारके धनका वान किया है। अपने सेवकोंसहित तुमने भी गुरुवन् शूद्रपाके द्वारा इनकी और गान्धारीदेवीकी आराधना की है। अब इनके तप करनेका समय है, अतः तुम अपने पिताको वनमें जानेको अनुमति दे दो। तुम्हारे ऊपर इनके मनमें तनिक भी क्रोध नहीं है।'

यों कहकर महर्षि व्यासने राजा युधिष्ठिरको राजी कर लिया और 'बहुत अच्छा' कहकर जब युधिष्ठिरने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तो वे वनमें अपने आश्रमपर चले गये। भगवान् व्यासके चले जानेपर राजा युधिष्ठिरने अपने युद्ध पिता धृतराष्ट्रसे नम्रतापूर्वक धीरे-धीरे कहा—'पिताजी! महर्षि व्यासने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करनेका निरन्धय किया है तथा महान् धनुर्धर कृपाचार्य, विदुर, मयूख्य और सञ्जय जंसा कहेंगे, निसन्देह मैं वैसा ही कहूँगा; किंतु इस समय आपके चरणोंमें मस्तक नूकाकर प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर लीजिये। फिर आश्रमको जाइयेगा।'

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरकी अनुमति पाकर धृतराष्ट्र गान्धारीके साथ अपने महलमें पधारे। उनकी चलनेकी शक्ति क्षीण हो गयी थी। वे बड़ी कठिनाईसे कदम उठाते थे। उस समय उनके पीछे-पीछे विदुर, सञ्जय और कृपाचार्य भी गये। महलमें पहुँचकर उन्होंने पूर्वाह्नकालकी धार्मिक क्रिया पूरी की। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अन्न-पान आदिसे तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार मनस्विनी गान्धारीदेवीने भी कुन्ती तथा पुत्रवधुओंके द्वारा पूजित होकर अन्न ग्रहण किया। उनके भोजन करनेके परवात् विदुर आदि तथा पाण्डुओंने भी भोजन किया और फिर सब लोग धृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित हुए। उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको एकान्तमें बैठे देस धृतराष्ट्रने उनकी पीठपर हाथ फेरते हुए कहा—'कुन्दनन्दन! इस आठ अङ्गुलाले राज्यमें तुम सदा धर्मको ही आगे रखना और बड़ी साधधानीके साथ इसका संभालन करना। राज्यकी रक्षा धर्मसे ही हो सकती है—इस बातको तुम स्वयं जानते हो, तथापि भूमले भी सुनते। सदा विचारमें यज्ञे-यज्ञे विद्वानोका सङ्ग किया करो। वे जो कुछ कहें, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और बिना विचारे उसका पालन करो। सबने उठकर उन विद्वानोंका यथोचित सम्मान करो और आवश्यकताके समय उनसे अपने कर्तव्य पूछो।



अपना हित करनेकी इच्छासे तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना चाहिये। सम्मानित होनेपर वे सर्वथा तुम्हारे हितकी बात बतायेंगे। जैसे सारथी घोड़ोंको काबूमें रखता है, उगो प्रकार तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अधीन रखकर उनको रखा करो, ऐसा करनेमें वे संचिन धनकी भाँति मन्त्रियमें तुम्हारे तिये हितकर होंगी। जो जन्म-मृत्यु और जित-पद-भावसे काम करनेवाले हों, जो पिना-पितामहोंके सम्मानमें काम देखते आ रहे हों तथा जो बाह्य-भीमरसे रुद्ध, संयमी, पुण्यकर्म करनेवाले तथा परम परिज हों, उन मन्त्रियोंको सब तरहके कार्यमें नियुक्त करना। जिनकी अक्षरपर परीक्षा ले सी गयी हो, जो अपने ही राज्यके भीतर विवाह करनेवाले हों तथा जिन्हें गुरु पुरुषानने न हों, ऐसे अनेको जासूसोंको भेजकर उनके द्वारा राज्योंका गुप्त मंत्र मंत्रे रहना। तुम्हारे नगरकी रक्षाएँ पूर्ण प्रबन्ध रहना चाहिये—उसके चारों ओरकी दीवारें और सब दरवाजा सब मजबूत हों। बीचमें सब ओर ऊँचो-ऊँचो भूट्टामिचालें रहें। नगरके सभी दरवाजे बिसाल हों तथा उनपर चौकी-पहरोका पूरा प्रबन्ध रहे। द्वारोंका विभाग ठीक स्थानपर होना चाहिये तथा चारों ओरसे उनको रक्षाके लिये यज्ञ (मार्गान अथवा तोप) लगे रहने चाहिये। जिन मनुष्योंका क्रुम और शोभ अच्छी तरह मामूय हो, उन्हींसे काम लेना चाहिये। अज्ञान और बिहार करने, माना पढ़नेने शिष्यपर सोने तथा आश्रम-वन्दनेके समय सदा साधधानीके साथ अपनी रक्षा करनेकी

चाहिये । कुलीन, शीलवान्, विद्वान्, विश्वात्पात्र एवं वृद्ध पुरुषोंके द्वारा रनिवात्तकी रक्षाका पूर्ण प्रबन्ध करना चाहिये ।

‘युधिष्ठिर ! तुम उन्हीं ब्राह्मणोंको मन्त्री बनाना, जो विद्यामें प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म और अर्थमें कुशल तथा सरल स्वभाववाले हों, उन्हींके साथ तुम गूढ़ विषयपर परामर्श करना । किंतु अधिक लोगोंको साथ लेकर देरतक मन्त्रणा नहीं करनी चाहिये । सम्पूर्ण मन्त्रियोंको अथवा उनमेंसे दो-एकको किसी कामके बहाने चारों ओरसे सुरक्षित बंद कमरेमें या खुले मैदानमें ले जाकर उनके साथ परामर्श करना । जिसमें अधिक घात-फूट या झाड़-झंकाड़ न हो, ऐसे अंगलमें भी मन्त्रणा की जा सकती है; किंतु रात्रिके समय तो इन स्थानोंमें किसी तरह गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिये । बंदर, पत्नी, मनुष्योंके पीछे चलनेवाले प्राणी, मूर्ख तथा पशु मनुष्य—इन सबको मन्त्रणा-गृहमें नहीं आने देना चाहिये, क्योंकि गुप्त मन्त्रणाके दूसरोंपर प्रकट हो जानेसे राजाओंको जिन संकटोंका सामना करना पड़ता है, उनका किसी तरह निवारण नहीं किया जा सकता—ऐसा मेरा विश्वास है । मन्त्रणा खुल जानेसे जो दोष पैदा होते हैं, उनको तुम अपने मन्त्रिमण्डलके समक्ष सदा बतलाते रहना । नगर और प्रान्तमें रहनेवाले लोगोंका हार्दिक भाव तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध, इस बातको जाननेकी पूरी चेष्टा रखना । न्याय करनेके कामपर तुम सदा ऐसे ही पुरुषोंको नियुक्त करना, जो विश्वात्पात्र, संतोषी और हितैषी हों तथा गुप्तचरोंके द्वारा हमेशा उनके कार्योंपर दृष्टि रखना । तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिये, जिससे तुम्हारे नियुक्त किये हुए न्यायाधिकारी पुरुष अपराधियोंके अपराधोंको भलीभाँति समझकर जो दण्डनीय हों, उन्हें ही उचित दण्ड दें । जिनकी दूसरोंसे रिरिबत लेनेकी आदत हो, जो परायी स्त्रियोंका अपहरण करते हों, जिनमें कठोर-दण्ड देनेकी प्रवृत्ति हो, जो मूढ़ा फैसला देनेवाले, कट्टवादी, लोभी, दूसरोंका धन हरनेवाले, दुःसाहसका काम करनेवाले, सभामवन और विहार-स्थलोंको भङ्ग करनेवाले और वर्णसंकर-दोषके प्रचारक हों, उन मनुष्योंको देश-कालका ध्यान रखते हुए आर्थिकदण्ड अथवा प्राणदण्ड देना चाहिये । प्रातःकाल उठकर (नित्य-नियमसे निवृत्त होनेके बाद) पहले तुम्हें उन लोगोंसे मिलना चाहिये, जो तुम्हारे लिये खर्च-बर्चके कामपर नियुक्त हों, इसके बाद आभूषण और भोजनपर ध्यान देना चाहिये । तत्पश्चात् सैनिकोंका हर्ष और जस्ताह बढ़ाते हुए उनसे मिलना चाहिये । दूतों और जानसूतोंसे मिलनेका उत्तम समय संध्या-काल है । पहरभर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिनके कर्तव्यका निर्णय कर लेना चाहिये । आधी रात और दोपहरके

समय तुम्हें स्वयं घूम-फिरकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण करना उचित है । सदा न्यायका अनुसरण करते हुए ही तुम खजाना बढ़ानेका यत्न करना । न्यायके विपरीत उपायका अवलम्बन न करना । पहले काम देखकर फिर किसीको नौकरी देना । जो अपने आश्रयमें रहते हों, वे किसी स्थायी कामपर नियुक्त हों या न हों, उनसे काम बराबर लेते रहना चाहिये । सेनापति उसको बनाना चाहिये जो वृद्धप्रतिज्ञ, शूरवीर, क्लेश सह सकनेवाला, हितैषी, पुरुषार्थी और स्वामि-भक्त हो । तुम्हारे राज्यके अंदर रहनेवाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें तो तुम्हें उनके भरण-पोषणका प्रबन्ध करना चाहिये । अपनी और शत्रुओंकी कमजोरीपर सदा दृष्टि रखनी चाहिये । अपने देशमें उत्पन्न होनेवाले पुरुषोंमेंसे जो लोग अपने कार्योंमें विशेष कुशल और हितैषी हों, उन्हें उनके योग्य आजीविका देकर अपनाता चाहिये । बुद्धिमान् राजाको उचित है कि वह गुणार्थी मनुष्योंके गुण बढ़ानेका प्रयत्न करता रहे ।

‘भारत ! तुम अपने शत्रुओंके, उदासीन राजाओंके तथा मध्यस्थ पुरुषोंके समुदायपर दृष्टि रक्खो । चार प्रकारके शत्रुसमुदाय, छः प्रकारके आततायी, अपने मित्र तथा शत्रुके मित्र—इन बारह प्रकारके मनुष्योंकी तुम्हें सदा जानकारी रखनी चाहिये । मन्त्री, देश, दुर्ग और सेना—इन्हींपर शत्रुओंका लक्ष्य रहता है; अतः इनकी रक्षामें सावधान होना चाहिये । उपर्युक्त बारह प्रकारके मनुष्य राजाओंके ही मुख्य विषय हैं । मन्त्रीके अधीन रहनेवाले कृषि आदि साठ गुण और पूर्वोक्त बारह मनुष्य—इन सबको नीतिज्ञ आचार्योंने ‘मण्डल’ नाम दिया है । राजाको इनकी जानकारी होनी आवश्यक है; क्योंकि राज्य-रक्षाके छः उपायोंका उचित उपयोग इन्हींके अधीन है । राजाको चाहिये कि वह अपनी वृद्धि, क्षय तथा स्थितिका हमेशा ज्ञान रक्खे और जब अपना पक्ष बलवान् और शत्रुका पक्ष निर्बल जान पड़े, उस समय शत्रुके साथ लड़ाई छोड़कर उसे जीतनेका उद्योग करे, किंतु जिस समय शत्रु-पक्ष प्रबल और अपना ही पक्ष दुर्बल हो, उस समय शत्रुओंके साथ संधि कर ले । राजाको हमेशा द्रव्योंका महान् संग्रह रखना चाहिये । जब वह शत्रुपर शीघ्र ही चढ़ाई करनेमें समर्थ न हो सके तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो, उसका भलीभाँति विचार कर ले । शत्रुको कम उपजवाली जमीन, थोड़ा-सा सोना और अधिक मात्रामें जस्ता-पीतल आदि धातुएँ तथा दुर्बल मित्र देकर उसके साथ संधि करे; किंतु शत्रु-पक्षकी ओरसे जब संधिका प्रस्ताव किया जाय तो संधिकुशल राजाको उससे विपरीत वस्तुएँ—उपजाऊ भूमि, सोना-चाँदी आदि धातुएँ तथा बलवान् मित्रोंकी

अब रहने दो, मुझे बोलनेमें बड़ा परिश्रम पड़ता है। अब तो मैं जानेकी अनुमति चाहता हूँ। यह कहकर वे गान्धारीके महलमें चले गये। वहाँ जब वे आसनपर बैठे तो धर्मपरायणा गान्धारीदेवीने उनसे पूछा—'नाथ! महर्षि व्यासने स्वयं आकर आपको बन जानेकी आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिरकी भी अनुमति मिल गयी। अब आप किस दिन बनको चलेंगे?'

धृतराष्ट्रने कहा—गान्धारी! अब बन चलनेमें अधिक विलम्ब नहीं है। मैं चाहता हूँ प्रजाको बुराकर अपने मरे हुए पुत्रोंके उद्देश्यसे कुछ धन दान कर लूँ।

यों कहकर धृतराष्ट्रने धर्मराज युधिष्ठिरके पास अपना विचार कहला भेजा। युधिष्ठिरने उनकी आज्ञाके अनुसार सब सामग्री जुटा दी। फिर (राजाका संदेश पाकर) क्रुञ्जालदेशके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वहाँ एकत्रित हुए। तदनन्तर, महाराज धृतराष्ट्र अन्तःपुरसे बाहर निकले और वहाँ नगर तथा प्रान्तकी प्रजाको उपस्थित देखकर बोले—'सज्जनों! आप और कौरव चिरकालसे एक साथ रहते आये हैं। कौरवों तथा आपमें परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो गया है। आप दोनों सदा एक-दूसरेके हितमें परायण रहते हैं। इस समय मैं आपलोगोंसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप उसे बिना विचारे स्वीकार करनेकी छुपा करें। मैंने गान्धारीके साथ बनमें जानेका निश्चय किया है। इसके लिये महर्षि व्यास और कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरकी भी अनुमति मिल गयी है। अब आपलोग भी मुझे बनमें जानेकी आज्ञा दें, इसमें कुछ अन्यथा विचार न करें। हमारे साथ आपलोगोंका जो यह प्रेम-सम्बन्ध सदासे चला आ रहा है, ऐसा सम्बन्ध मेरी समझमें दूसरे देशके राजाओंके साथ वहाँकी प्रजाका शायद ही हो। अब बुढ़ापेने मुझे और गान्धारीको बहुत थका दिया है, इधर उपवास करनेके कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गये हैं। युधिष्ठिरके राज्यमें मुझे बड़ा सुख मिला है। मैं समझता हूँ दुर्योधनके राज्यमें भी कभी इतना सुख नहीं नसीब हुआ। एक तो मैं जन्मका अंधा हूँ, दूसरे बुढ़ापेने मुझपर अधिकार जमा लिया है; इसपर भी मेरे बेटे मारे गये हैं (उनका शोक कभी दूर नहीं होता)। ऐसी दशामें बनमें जानेके सिवा मेरे कल्याणका और क्या उपाय हो सकता है? इसलिये अब आपलोग मुझे जानेकी आज्ञा दें।'

धृतराष्ट्रकी ये बातें सुनकर वहाँ उपस्थित हुए क्रुञ्जालनिवासी सभी मनुष्योंकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह चली और वे फूट-फूटकर रोने लगे। उन्हें शोकमग्न होकर

कुछ भी उत्तर देते न देख धृतराष्ट्र फिर कहने लगे—'माइयो! महाराज शान्तनुने इस पृथ्वीका यथावत् पालन किया था। उनके बाद यह भीष्मके द्वारा सुरोक्त राजा विचित्रवीर्य के अधिकारमें आया। उन्होंने जिस प्रकार इस राज्यकी रक्षा की, वह आपलोगोंसे छिपा नहीं है। तदनन्तर, मेरे भाई पाण्डुने इसका विधिवत् पालन किया था, इसे भी आपलोग जानते हैं। अपने प्रजा-पालनरूपी गुणके कारण ही वे आपलोगोंके परमप्रिय हो गये थे। पाण्डुके बाद मैंने आपलोगोंकी भली या बुरी जैसी बन सकी, सेवा की है। किन्तु उस समय मुझसे जो अपराध हो गये हैं, उन्हें आपलोग क्षमा कीजियेगा। दुर्योधनने जब अकण्ठक राज्यका उपभोग किया था, उस समय उसने भी आपलोगोंका कुछ नहीं बिगाड़ा था (केवल पाण्डुवोंके साथ अन्याय किया था)। किन्तु उस दुर्योधनके अपराध और अभिमानसे तथा मेरे किये हुए अन्यायके कारण असंख्य राजाओंका महान् संहार हो गया है। उस अवसरपर मुझसे भला या बुरा जो कुछ हुआ है, उसे आपलोग भूल जायें; इस बातके लिये मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मुझे बृद्ध, दुःखी और अपने प्राचीन राजाओंका वंशज समझकर क्षमा करें। यह बेचारी तपस्विनी गान्धारी भी मेरे साथ आपलोगोंसे क्षमा-याचना करती है। हम दोनों बुरे हैं और अपने पुत्रोंके मारे जानेके कारण दुःखमें डूबे हुए हैं—ऐसा जानकर आप हमें क्षमादान देते हुए बनमें जानेकी आज्ञा दें। आपलोगोंका कल्याण हो। हम दोनों आपकी शरण हैं। वे क्रुञ्जालभूषण कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर आपलोगों राजा हैं। अच्छे और बुरे—सभी समयमें आप सब तन इनपर कृपादृष्टि रखें। लोकपालोंके समान महान् तेज तथा धर्म और अर्थके समस्त भीषसेन आदि चार भाई जिमन्त्री हैं, ऐसे राजा युधिष्ठिर कभी संकटमें नहीं पड़ सकें फिर भी आपलोगोंको इनका खयाल रखना चाहिये। स जीव-जगत्के स्वामी भगवान् ब्रह्माकी भाँति ये महान् तेज युधिष्ठिर आपलोगोंका यथावत् पालन करेंगे। मैं धरोहरके रूपमें आपलोगोंके हाथ सौंपता हूँ तथा आपलोग इनके हाथमें दे रहा हूँ। आपलोग अत्यन्त गुरुभवत हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरे पुत्रोंकी चञ्चल थी। वे लोभी और स्वेच्छाचारी थे, उनके अपके लिये मैं और गान्धारी दोनों आपसे क्षमाकी भीख माँग

धृतराष्ट्रके इस प्रकार कहनेपर नगर और रहनेवाले सब लोग नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए एक दूसरे देखने लगे, किसीने कोई उत्तर नहीं दिया।

साम्ब नामक ब्राह्मणका प्रजाकी ओरसे घृतराष्ट्रको उत्तर देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । कुहराजकी कदनामरी बातें सुनकर यहाँ एकदिवस हुए सब लोग हुए और हाथसे अपना-अपना मूँह ढककर रोने लगे । अपनी संतानको विदा करते समय पिता और भ्राताकी वितना क्लेश होता है, उतना ही क्लेश कुहराजसन्निवासी मनुष्योंको हुआ । वे शोकसे संतप्त हो उठे और अपने सुने हुए धर्ममें घृतराष्ट्रके प्रयासजन्य बुझको धारण करके अचेत-से हो गये । फिर धीरे-धीरे उनके वियोगजनित क्लेशको कम करके उन सबने आपसमें बात करके अपनी-अपनी राय जाहिर की । तदनन्तर, एकमत होकर उन्होंने राजाकी बातका उत्तर देनेका भार एक ब्राह्मणपर रक्खा । वे ब्राह्मणदेवता सराधारी, सबके माननीय और अर्थ-ज्ञानमें निपुण थे । उनका नाम था साम्ब । वे श्रेयदेवके विद्वान्, निर्भय होकर बोलनेवाले और बुद्धिमान् थे । उन्होंने उठकर महाराजको आग्रह देते और सारी सभाको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहना आरम्भ किया—‘राजन् ! यहाँ उपस्थित हुए सब लोगोंके अपना विचार प्रकट करनेका सारा भार भुङ्गपर रक्खा है, इसलिये मैं ही इनकी बातें आपकी सेवामें निवेदन करूँगा । आप सुननेकी कृपा करें । महाराज ! आप जो कुछ कहते हैं, वह सब ठीक है ; उसमें असत्यका लेश भी नहीं है । निःसन्देह हममें और आपमें परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो चुका है । इस राजवंशमें कभी कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ, जो प्रजाका पालन करते समय सबका प्रिय न रहा हो । आपसो पिता और बड़े भाईके समान हमारा पालन करते हैं । राजा दुर्योगने भी हमारे साथ कोई अनुचित बर्ताव नहीं किया है । परम धर्मात्मा महर्षि व्यासजी आपको जैसी सलाह देते हैं, वैसा ही कोजिये ; क्योंकि वे हम सब लोगोंके परम गुरु हैं । आपसे विद्वद् जनैयरे हम बहुत विनोतक बुल और शोकमें डूबे रहेंगे । आपके सैकड़ों गुणोंको याद हमें भूल नहीं सकती । महाराज शान्तनू, राजा विश्वामित्र और भीष्मदत्ता सुप्रसिद्ध आपके पिता विचित्रवीर्यने जिस प्रकार इस पुष्पीका पालन किया है तथा आपकी देख-रेखमें रहकर राजा पाण्डुने जिस तरह इस राज्यकी रखा की है, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योगने भी हमसोनोंका यथावत् पालन किया है । उन्होंने रसीमर भी हमारी बुराई नहीं की है । हमसोण पिताके समान उनपर विश्वास करते थे और उनके राज्यमें बड़े सुखसे जीवन व्यतीत करते थे, यह बात आपसे छिपी नहीं है । बड़ी-बड़ी बलिदान प्रदान करनेवाले धर्मात्मा राजा दुर्घण्टिसे तो


प्राचीनकालके पुष्पात्मा राजर्षि बुध और संवरण आदिने तथा राजा भरतके बर्तावका अनुसरण करते हैं । इनमें कोई छोटे-से-छोटा दोष भी नहीं रिखायी देना । इनके राज्यमें आपके द्वारा सुप्रसिद्ध होकर हम सदा सुखमें ही रहने आ रहे हैं । आपका या आपके पुत्रका कोई कृत-मे-गुणम अपराध भी हमारे देखनेमें नहीं आया । महाराज-त-दुर्घमें जो बर्ताव-पाइयोंका संहार हुआ है और उनके विपद्यमें जो आपने दुर्योगने अपराधकी बर्बादी की है, इसके सम्बन्धमें भी मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । कौरवोंके धारे धारनेमें न दुर्योगका हाथ है, न आपका ; कर्म और शक्तिने भी कुछ नहीं किया है । हमारी समझमें तो यह ईश्वर विद्याय था, जिसे कोई टाल नहीं सकता था । पुत्रवापसे ईश्वरके देवता असम्भव है । उस दुर्घमें अष्टाष्ट अर्थात् शिवी सेवार्थ दुर्घजन हुई थी ; किन्तु भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्म और कृपाचार्य आदि कौरव-पक्षके प्रधान योद्धाओंने तथा साम्बिक, दुष्टदुष्म, भीमसेन, अर्जुन, मद्रुस और सहदेव आदि पाण्डव-पक्षके धीरोंने अष्टाष्ट विनोतें हो सबका संहार कर डाला । ऐसा विकट संहार ईश्वर शक्तिके बिना कदापि नहीं हो सकता था । अतः उन राजाओंके धर्ममें आपके पुत्र दुर्योगन, आप, धारके सेवक, महावीर कर्म तथा शक्ति भी कारण नहीं हैं । उस समय जो हमारों राजा भीतके घाट उतारे गये, वह सब ईश्वरकी ही करतूत समझिये । इस विपद्यमें हमारो कोई बचा वह सकता है । आप इस सम्पूर्ण अज्ञानके स्वामी हैं, इसलिये हम आपको सबसे अघट और धर्मात्मा मानते हैं तथा आप और आपके पुत्रके साथ अपनी हार्थिक सहानुभूति प्रकट करते हैं । परमात्मां करे, महाराज दुर्योगन ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे अपने सहयुक्तोत्सिद्ध बौरसेवको प्राप्त हों । आप भी धर्ममें अंधी स्थिति और पुत्र्य प्राप्त करें । आप सम्पूर्ण धर्मोंको टोच-टीक जानते हैं, इसलिये उत्तम धर्मके अनुष्ठानमें लग जायें । पाण्डुनन्दन राजा दुर्घण्टिसे परसेके राजाओंद्वारा स्वीकृत विधे हुए ब्राह्मणोंके अपहरण (धानमें विधे हुए प्राप्त) तथा परिकर्ष (पुरस्कारमें विधे हुए प्राप्त) की रखा करते ही हैं । ये धीर्य-बर्ता, कोमल स्वभाववाले और क्रितीव्रिय हैं । इनके मर्गो उच्च विचारके हैं, इनका हृदय बड़ा ही विरासल है । ये शत्रुघ्नपर भी बया करनेवाले और परम पवित्र हैं । बुद्धिमान् होनेके साथ ही वे सबको सरस भावसे देखनेवाले हैं और हमसोनोंका स्था पुत्रवत् पालन करते हैं । ये धीरों भाई बड़े पराक्रमी, महात्मा तथा पुरुषार्थियोंके हित-साधनमें लगे

रहनेवाले हैं। कुन्ती, द्रौपदी, जल्पी और सुभद्रा भी कभी प्रजाके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगी। आपका प्रजाके साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरने और भी बढ़ा दिया है। नगर और प्रान्तके लोग कभी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिये महाराज! आप युधिष्ठिरके विषयकी चिन्ता तो छोड़ दीजिये और अपने धार्मिक कार्योंके अनुष्ठानमें लग जाइये। आपको समस्त प्रजाका नमस्कार है।'

साम्बके धर्मानुकूल और गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हें साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बातका अनुनोदन किया। धृतराष्ट्रने भी बारंबार साम्बके वचनोंकी सराहना की और सब लोगोंसे सम्मानित होकर धीरे-धीरे सबको विदा कर दिया। तत्पश्चात् हाथ जोड़कर उन ब्राह्मण-देवताका सत्कार किया और गान्धारीके साथ वे फिर अपने महलमें चले गये।

धृतराष्ट्रका युधिष्ठिरसे धन लेकर उससे भीष्म आदिका श्राद्ध करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! तदनन्तर, रात बीतनेपर जब सवेरा हुआ तो अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने विदुरजीकी युधिष्ठिरके महलमें भेजा। राजाकी आज्ञासे महातेजस्वी विदुरजी युधिष्ठिरके पास जाकर बोले—



'राजन्! महाराज धृतराष्ट्र वनवासकी दीक्षा ले चुके हैं, आगामी कार्तिकी पूर्णिमाको वे वनकी यात्रा करेंगे। इस समय तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, बाह्लीक और अपने पुत्रों तथा मरे हुए सुहृदोंका श्राद्ध करें और उनके निमित्त दान दें। तुम्हारी सम्मति हो तो वे जयद्रथका भी श्राद्ध करना चाहते हैं।' विदुरजीकी यह बात सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन बहुत प्रसन्न

हुए और उनकी सराहना करने लगे। परंतु भीमसेनके हृदयमें अमिट क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधनके किये हुए अत्याचारोंका स्मरण हो आया। अतः उन्होंने विदुरजीकी बात नहीं स्वीकार की। अर्जुन उनका मनोभाव ताड़ गये, इसलिये वे कुछ विनीत होकर बोले—'भैया! राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और वृद्ध पुरुष हैं तथा इस समय वनवासकी दीक्षा ले चुके हैं। जानेके पहले वे भीष्म आदि समस्त सुहृदोंका श्राद्धकर लेना चाहते हैं, अतः इसमें आपको सहयोग देना चाहिये। सौभाग्यकी बात है कि राजा धृतराष्ट्र आज हमलोगोंसे धनकी याचना करते हैं। समयका उलट-फेर तो देखिये। पहले हमलोग जिनसे याचना करते थे, आज वे ही हमारे सामने हाथ फैलाते हैं। जो सम्पूर्ण भूमण्डलके राजा थे, वे आज वनमें जाना चाहते हैं; अतः आप उन्हें धन देनेके सिवा और कोई विचार मनमें न लावें। उनकी याचना ठुकरा देनेसे बढ़कर हमारे लिये और कोई फलककी बात न होगी। उन्हें धन न देनेसे हमें महान् अधर्मका भागी होना पड़ेगा। आप राजा युधिष्ठिरके बर्तावसे शिक्षा ग्रहण करें; क्योंकि बड़ा भाई ईश्वरके समान होता है।'

अर्जुनकी यह बात सुनकर धर्मराजने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। तब भीमसेनने क्रोधमें भरकर कहा—'अर्जुन! हमलोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजर्षि बाह्लीक, महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब सगे-सम्बन्धियोंका श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुन्ती कर्णको पिण्डदान कर लेगी। राजा धृतराष्ट्रको इसके लिये धन देनेकी आवश्यकता नहीं है। वे उपर्युक्त महानुभावोंका श्राद्ध न करें, यही मेरा विचार है। क्या तुम्हें उनकी करतूतें भूल गयीं? वे ही हमारे कुलमें आग लगानेवाले हैं। उनकी बुद्धि इतनी छोटी है कि कपट-युक्त आरम्भ कराकर वे विदुरजीसे वाद-वार पूछते थे कि इस दावमें हमलोगोंने कितना जीता

है ?' भीमको ऐसी बातें करते बेल बुद्धिमान् राजा युधिष्ठिरने डाँटकर कहा—'घुप रहो !'

अर्जुनने कहा—'मैया ! आप मेरे बड़े और गुरुजन हैं, इसलिये मैं आपसे कुछ विरोध करनेका साहस नहीं कर सकता। इतना ही निवेदन करता हूँ कि रात्रिमें धृतराष्ट्र हमारे द्वारा सर्वथा सम्मान पानेके योग्य हैं। साथ स्वभाव-वाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरोंके अपराधोंका स्मरण नहीं करते। ये सबके उपकारोंकी ही याद रखते हैं।

महात्मा अर्जुनके ये वचन सुनकर धर्मार्त्ता युधिष्ठिरने विदुरजीसे कहा—'चाचाजी ! आप मेरी ओरसे राजा धृतराष्ट्रसे जाकर कह दीजिये कि वे अपने पुत्रोंका याद करनेके लिये जितना भी धन लेना चाहें, मैं देने को तैयार हूँ। यह धन मैं अपने भंडारमेंसे दूँगा। इसके लिये भीमसेन-को बुलौ होनेकी आवश्यकता नहीं है।' विदुरजीसे ऐसा कहकर धर्मराजने अर्जुनको बड़ी प्रशंसा की। तब भीमसेन कुछ संकुचित होकर अर्जुनकी ओर कर्त्तव्यसे बेलने लगे। यह बेल राजा युधिष्ठिर पुनः विदुरजीसे कहने लगे—'आप राजा धृतराष्ट्रसे यह भी कहियेगा कि भीमसेनपर धनवाचके दुःसौंका विरोध प्रभाव पड़ा है; इसलिये ये डाहका जो कुछ कहते या करते हैं, उसका ये स्यास न करें। मेरे और अर्जुनके भवनेमें जितनी सम्पत्ति है, उसके मालिक महाराज ही हैं। वे अपनी इच्छाके अनुसार उसे सच करे और ब्राह्मणोंको दान दें। आज वे अपने पुत्रों और सुहृदोंके श्रेष्ठसे मृत हो जायें। मेरा यह शरीर और धन—सब उन्हींके अधीन है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।'

राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विदुरने धृतराष्ट्रके पास जाकर कहा—'महाराज ! मैंने युधिष्ठिरके यहाँ जाकर आपका संदेश यह सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की। महातेजस्वी अर्जुन तो अपना घर, सम्पत्ति और प्राणतक आपकी सेवामें समर्पण करनेको तैयार हैं। आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिरकी भी यही स्थिति है। वे अपना राज्य, प्राण, धन तथा और जो कुछ उनके पास है, सब आपकी दे रहे हैं। परंतु महाबाहु भीमसेनने पहलेके समस्त कत्तोंका स्मरण करके बड़ी कठिनाईसे आता स्वीकार की है। धर्मार्त्ता युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने उन्हें मत्तोर्भाति समझाकर उनके हृदयमें भी आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर दिया है। धर्मराजने आपसे कहसया है कि 'भीमसेन पूर्व धरका स्मरण करके जो बन्दी-कमी आपके साथ अन्याय-सा कर बैठते हैं, उसके लिये आप इनपर कोप न कीजियेगा। भीमसेनके बटु बर्चिकके लिये मैं

और अर्जुन दोनों बारंबार सामा-याचना करते हैं। आप प्रसन्न हों। मेरे पास जो कुछ है, उसके स्वामी आप ही हैं। आप जितना धन दान करना चाहते हों, करें। मेरे राज्य और प्राणोंको भी आप ही अधीन रखें। पुत्रोंका याद कीजिये और ब्राह्मणोंको मार्ग ब्रवीत कीजिये। युधिष्ठिरने यह भी कहा है कि 'महाराज धृतराष्ट्र मेरे यहाँ मैंना प्रकारे रख, गोप्य, दान और शक्तिमें भीमसेन ब्राह्मणोंको दान करें।' उन्हींके मन्त्रणे कहा है—'विदुरजी ! जन दोनों, मंत्रों और कर्मात्मिके लिये मित्र-मित्र स्वार्थोंमें प्रथम मन्त्र, रस और पीने योग्य पदार्थोंको परो हूँ अनेकों धर्मगणानु-बन्धनके लिये गोप्यके पानी पीनेके लिये पौंस-ता निर्माण कीजिये। साथ ही भक्ति-भक्तिके अन्वय पुण्यभोगोंका भी अनुष्ठान कीजिये।' इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुनने मन्त्रणे जो कुछ कहा है, वह सब मैंने सुना लिया। अब इनके याद को दान करना ही, उसे बनाइये।'

विदुरके ऐसा कहनेपर राजा धृतराष्ट्रने पादुकोंकी बड़ी सराहना की और कालित्री गुणगायन बहुत बड़ा दान करनेका निश्चय किया। वे युधिष्ठिर तथा अर्जुनके कामने बहुत प्रसन्न थे। उन्हींके भीष्म आदिके भाइयोंके लिये योग्य ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ श्रमियोंको हजाराँकी संख्यामें नियमित किया तथा उनके लिये अन्न, पान, साधारी, मोड़नेके बाण, गुण्य, मणि, रत्न, बन्धन, धाम, सेत, धन, आभूषणमूर्त्ति हाथी और घोड़े आदि देनेकी व्यवस्था करायी। तत्पश्चात् गरी हुए एष-शुक्र स्थापितका नाम ले-लेकर सबके उद्देश्यने उपयुक्त वस्तुओंका दान किया। शोष, भीष्म, भीमसेन, दाहृतेव, राजा कुण्डिन तथा अन्य पुत्रोंका और जन्मम आदि सगे-सम्बन्धियोंका नाम उच्चारण करके उन सबके निमित्त पुण्य-मुच्य दान किया गया। युधिष्ठिरकी सम्पत्तिसे उन भाइयोंमें बहुतने धन तथा अनेक प्रकारके रत्नोंकी दरिद्रता ही गयी। धर्मराजकी आशासे हितकर समाने और सत्पत्तेशाने बहूने कान-कला बड़ी निरन्तर उत्पन्न रहकर धृतराष्ट्रने घूटने रखे थे कि 'बाताइये, इन याचकोंको क्या दिया जाय ? यहाँ सब लक्ष्यने प्राप्तु है।' उनके मूर्त्ते निकलने ही उतना दान दे दिया जाय था। बुद्धिमान् युधिष्ठिरके आदेशानुसार शोरी कण्ट हज्जर और हज्जरकी जगह दान हज्जाराका दान दिया गया। जिस प्रकार मेघ पानीकी छाटा बहकर सोनीकी हथी-परी कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्रने धनकी कृपि लक्षण ब्राह्मणोंको तुला कर दिया। तदनन्तर, सभी बर्चिके भीमसेनके भक्ति-भक्तिके क्षेत्र और पीने योग्य रत्न दान करके शंभु-दिया। इस प्रकार उन्हींके पुत्रों, पौत्रों और विपरीत तथा भक्त और पादपारीका भी दान किया। अनेकों प्रकारके


रहनेवाले हैं। कुन्ती, द्रौपदी, उलूपी और सुमद्रा भी कभी प्रजाके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगी। आपका प्रजाके साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरने और भी बढ़ा दिया है। नगर और प्रान्तके लोग कभी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिये महाराज! आप युधिष्ठिरके विषयकी चिन्ता तो छोड़ दीजिये और अपने धार्मिक कार्योंके अनुष्ठानमें लग जाइये। आपको समस्त प्रजाका नमस्कार है।'

साम्बके धर्मानुकूल और गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हें साधुवाद देने लगी तथा सवने उनकी बातका अनुमोदन किया। धृतराष्ट्रने भी वारंवार साम्बके वचनोंकी सराहना की और सब लोगोंसे सम्मानित होकर धीरे-धीरे सबको विदा कर दिया। तत्पश्चात् हाथ जोड़कर उन ब्राह्मण-देवताका सत्कार किया और गान्धारीके साथ वे फिर अपने महलमें चले गये।

धृतराष्ट्रका युधिष्ठिरसे धन लेकर उससे भीष्म आदिका श्राद्ध करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! तदनन्तर, रात बीतनेपर जब सवेरा हुआ तो अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने विदुरजीको युधिष्ठिरके महलमें भेजा। राजाकी आज्ञासे महातेजस्वी विदुरजी युधिष्ठिरके पास जाकर बोले—

हुए और उनकी सराहना करने लगे। परंतु भीमसेनके हृदयमें अमिट क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधनके किये हुए अत्याचारोंका स्मरण हो आया। अतः उन्होंने विदुरजीकी बात नहीं स्वीकार की। अर्जुन उनका मनोभाव ताड़ गये, इसलिये वे कुछ विनीत होकर बोले—'भैया! राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और वृद्ध पुरुष हैं तथा इस समय वनवासकी दीक्षा ले चुके हैं। जानेके पहले वे भीष्म आदि समस्त सुहृदोंका श्राद्धकर लेना चाहते हैं, अतः इसमें आपको सहयोग देना चाहिये। सौभाग्यकी बात है कि राजा धृतराष्ट्र आज हमलोगोंसे धनकी याचना करते हैं। समयका उलट-फेर तो देखिये। पहले हमलोग जिनसे याचना करते थे, आज वे ही हमारे सामने हाथ फैलाते हैं। जो सम्पूर्ण सूम्ण्डलके राजा थे, वे आज वनमें जाना चाहते हैं; अतः आप उन्हें धन देनेके सिवा और कोई विचार मनमें न लावें। उनकी याचना ठुकरा देनेसे बढ़कर हमारे लिये और कोई फलककी बात न होगी। उन्हें धन न देनेसे हमें महान् अधर्मका भागी होना पड़ेगा। आप राजा युधिष्ठिरके बर्तावसे शिक्षा ग्रहण करें; क्योंकि बड़ा भाई ईश्वरके समान होता है।'



'राजन्! महाराज धृतराष्ट्र वनवासकी दीक्षा ले चुके हैं, आगामी कार्तिकी पूर्णिमाको वे वनकी यात्रा करेंगे। इस समय तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, वाह्लीक और अपने पुत्रो तथा मरे हुए सुहृदोंका श्राद्ध करें और उनके निमित्त दान दें। तुम्हारी सम्मति हो तो वे जयद्रथका भी श्राद्ध करना चाहते हैं।' विदुरजीकी यह बात सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन बहुत प्रसन्न

अर्जुनकी यह बात सुनकर धर्मराजने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। तब भीमसेनने क्रोधमें भरकर कहा—'अर्जुन! हमलोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजर्षि वाह्लीक, महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब सगो-सम्बन्धियोंका श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुन्ती कर्णको पिण्डदान कर लेगी। राजा धृतराष्ट्रको इसके लिये धन देनेकी आवश्यकता नहीं है। वे उपर्युक्त महानुभावोंका श्राद्ध न करें, यही मेरा विचार है। क्या तुम्हें उनकी करतूतें भूल गयीं? वे ही हमारे कुलमें आग लगानेवाले हैं। उनकी बुद्धि इतनी खोटी है कि कपट-द्यूत आरम्भ कराकर वे विदुरजीसे बार-बार पूछते थे कि इस दावमें हमलोगोंने कितना जीता

अमागिनीका हृदय निरवय ही सोहेका बना हुआ है। तभी तो आज कर्णको न देखकर इसके सँकड़ों टुकड़े तहीं ही जाते। तुम अपने भाइयोंके साथ उसके लिये दान-मुन्य करते रहना। मेरी वह द्रौपदीका भी सदा प्रिय करना। भीमसेन, अर्जुन और नकुलका हमेशा साथ रहना; आगते कुन्द-कुलका पार तुम्हारे ही ऊपर है। अब मैं वनमें गांधारीके साथ रहकर तपस्या करूँगी और अपने इन सात-सगुरके चरणोंकी नेत्रोंमें सगी रहूँगी।'

कुन्तीके ऐसा बहनेपर भाइयोंसहित युधिष्ठिरको बड़ा दुःख हुआ। ये धोड़ी देरतक मौन रहकर कुछ सोचते रहे। इसके बाद शोकाकुल होकर मातासे बोले—'माँ! अपने अपने मनमें यह क्या ठान लिया? आपकी ऐसा नहीं करना चाहिये। मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता। हमलोगोंपर कृपा करके लौट चलिये। पहले आपने ही विवृताने बचनोंसे हमें क्षत्रिय-धर्मके पालनके लिये उत्साहित किया था। पुत्र-पोत्तम भगवान् भीष्मपणके मुलसे आपका विचार सुनकर ही मैंने राजाओंका संहार करके इस राज्यको हस्तगत किया है। कहीं आपकी वह बुद्धि और कहीं आजका यह विचार! हमें क्षत्रिय-धर्मपर स्थित रहनेका उपदेश देकर आप स्वयं उससे गिरना चाहती हैं। भला, हमको, अपनी इस बहूकी और इस राज्यको छोड़कर आप उस दुर्गम वनमें कैसे रह सकेंगी? अतः हमारे ऊपर कृपा कीजिये।'


अपने पुत्रके ये अद्भुतवचन सुनकर कुन्तीके नेत्रोंमें भी अँसू उमड़ आये; तो भी ये दक न सकीं, आगे बढ़ती ही गयीं। तब भीमसेनने कहा—'माताजी! जब पुत्रके जोते हुए इस राज्यको भोगनेका अवसर आया और राज-धर्मके पालनकी बुविधा प्राप्त हुई तो आपकी बुद्धि कैसे बदल गयी? क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर वनकी जाना चाहती हैं? जब वनमें ही रहना था तो वातक-अवस्थामें हमलोगोंकी और कुल-भोगमें दूधे हुए इन भाद्रोद्भारोंकी आप नगरमें क्यों से आयी? न! हम-

सौगोंपर प्रमत्त होये और बलपूर्वक प्राण की हुई रागा युधिष्ठिरकी राजमनसोका उपभोग कीजिये।' यह सुनकर भी कुन्ती वनवासके निरवयसे विचलित न हुई। उनके पुत्र माना प्रकाशसे विलाप करते रहे; किन्तु उन्होंने उनको बाप नहीं माना। सातको इस प्रकार वनवासके लिये जारी देण द्रौपदीका भी मूँह उदास हो गया और वह सुभद्राके साथ रोनी हुई कुन्तीके पीछे-पीछे जाने लगी। कुन्तीकी बुद्धि बड़ी ही ऊँची थी। वे वनवासका निरवय कर चुकी थीं, इगलिये अपने रोते हुए पुत्रोंके और बारंबार बेलकर भी वे टाग-मे-मस न हुईं—आगे बढ़ती ही बनी गयीं। पाण्डव भी अपने सेवकों और अन्न-पुरको विधायिके साथ उनके पीछे-पीछे जाने लगे। यह देण कुन्तीदेवी औगु पाँउपर अपने पुत्रोंसे बोनी—'भद्राबहो! सुभद्रा बटना ठीक है। पूर्वकालमें तुम माना प्रकाशके बच उठा रहे थे, इगलिये मैंने तुम्हें मुझके लिये उत्साहित किया था। मूएमें सुभद्राका राज्य छीन लिया गया था, तुम मुझके घबट हो चुके थे और सुभद्रा ही बगु-बाणधर सुभद्राका तिराकार बतले थे; इगलिये मैंने तुम्हें मुझके लिये उत्साह प्रदात किया था। पाण्डवोंके संतान किसी तरह नष्ट होनेसे बच जाय और तुम सब भाइयोंके सुवसाका नाश न होने पाये—इस उद्देश्यसे ही मैंने तुम्हें मुझके लिये उकसाया था (जगमें निरा होई अर्थात्गमन स्वार्थ नहीं था)। मैं अपने स्वामी सुभद्राका पाण्डुके विगत राज्यका मुल भोग चुकी हूँ। बड़े-बड़े दान और विधिबन्ध सोम-यान भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने नामके लिये भीष्मपणके प्रेरित नहीं किया था। किन्तुआने बचन सुनाकर जो उनके द्वारा सुभद्राके पाग सँकेस भेजा था, वह सब सुभद्राकी रक्षाके उद्देश्यसे ही किया गया था। बेटा युधिष्ठिर! अब मैं तपस्याके द्वारा अपने चिकेके विविध लोभमें जला चाहती हूँ, अतः वनवासी गांधारीको मेरा बचने लन्दे द्वारा इस शरीरको मुझा डालूँगी। तुम भीमसेन आदिंके साथ लौट जाओ। मैं आगीवरि देनी हूँ—सुभद्राकी बुद्धि धर्ममें लगी रहे और सुभद्राका हृदय अरपन उदार हो।'

गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिका गङ्गा-तटपर विश्राम करते हुए कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर घोर तपस्या करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कुन्तीकी बात सुनकर पाण्डव बहुत लज्जित हुए और उन्हें लौटानेमें सफल न होकर राजा धृतराष्ट्रकी प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके त्रौपदीसमेत नगरको लौट पड़े। तदनन्तर धृतराष्ट्रने गान्धारी और विदुरका सहारा लेकर कहा—‘गान्धारी ! युधिष्ठिरकी माता कुन्तीकी लौटा दो। युधिष्ठिर जैसा कह रहे हैं, वह सब ठीक ही है। यह राज्यमें रहकर भी बड़े-बड़े दान और तप कर सकती है। वह कुन्तीकी सेवा-शुभ्रूषासे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिये अब तुम इसे घर लौट जानेकी आज्ञा दो।’ राजाके ऐसा कहनेपर गान्धारीदेवीने कुन्तीसे उनका संदेश सुना दिया और अपनी ओरसे भी उन्हें लौटनेके लिये विशेष जोर दिया; किंतु धर्मपरायणा सती कुन्तीदेवी वनवासके लिये दृढ़ निश्चय कर चुकी थीं, अतः गान्धारी उन्हें किसी प्रकार लौटा न सकीं। कुण्डलकी स्त्रियाँ कुन्तीका यह दृढ़ निश्चय जानकर पाण्डवोंको निराश लौटते देख फूट-फूटकर रोने लगीं। जब बहुओंके साथ समस्त पाण्डव लौट गये, तो राजा धृतराष्ट्र वनकी ओर चल दिये। उस समय पाण्डव अत्यन्त दोन और दुःख-शोकमें गगन हो रहे थे। उन्होंने वाहनोंपर बैठकर स्त्रियोंसहित नगरमें प्रवेश किया। उस दिन बालक-वृद्ध और स्त्रियोंसहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष और आनन्दसे रहित, उस्तवशून्य—उदास-सा हो गया था। किसीके मनमें उत्साह नहीं रह गया था। कुन्तीके विना बेचारे पाण्डवोंकी दशा तो विना गायके बछड़ोंकी-सी हो गयी थी।

उधर, राजा धृतराष्ट्रने उस दिन बहुत दूरतक यात्रा करनेके पश्चात् गङ्गाके तटपर निवास किया। वहाँके तपोवनमें वेदवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा विधिपूर्वक प्रकट की हुई आग यत्र-तत्र प्रज्वलित हो रही थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्रने भी अग्निको प्रकट किया और उसकी विधिवत् आराधना करके उसमें आहुति डाली। फिर सूर्यदेवको संख्याके समय अस्त होते देख उनका उपस्थान किया। इसके बाद विदुर और सञ्जयने राजाके लिये कुशोंकी शय्या बिछा दी। उनके पास ही गान्धारीके लिये भी एक पृथक् आसन लगा दिया। उत्तम व्रतोंका पालन करनेवाली कुन्ती भी गान्धारीके निकट कुशासनके ऊपर सोयीं और उत्तीमें उन्होंने सुख माना। विदुर आदि भी राजासे उतनी ही दूरपर सोये, जहाँसे उनकी आवाज सुनायी दे सके। यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण तथा राजाके साथ आये हुए अन्य विप्र यथायोग्य त्यागपर सोये। उस



तपोवनमें मुख्य-मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे और जहाँ-तहाँ अग्निहोत्रकी आग प्रज्वलित हो रही थी। इससे वह राति उन लोगोंको बड़ी आनन्ददायिनी जान पड़ी। रात बीत जानेपर प्रातःकाल उठकर सब लोगोंने पूर्वाह्निकालकी क्रिया पूरी की और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करके सब-के-सब उत्तरदिशाकी ओर क्रमशः आगे बढ़े। किसीने भोजन नहीं किया था। सब लोग उपवास-व्रतका ही पालन कर रहे थे। तदनन्तर, (दिन व्यतीत होनेपर) विदुरजीके कहनेसे राजा धृतराष्ट्रने पुण्यात्मा पुरुषोंके रहनेयोग्य भागीरथीके पवित्र तटपर निवास किया। वहाँ वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्यामें एकत्रित होकर राजासे मिलनेको आये। उनसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्रने नाना प्रकारकी बातचीत करके सबको प्रसन्न किया और ब्राह्मणों तथा उनके शिष्योंका विधिवत् पूजन करके उन्हें विदा किया। तत्पश्चात् सायंकालमें राजा तथा यशस्विनी गान्धारीदेवीने गङ्गाजीके जलमें प्रवेश करके विधिवत् स्नान किया और विदुर आदि अन्य सब लोगोंने भी गङ्गाके मित्र-मित्र घाटोंपर डुबकी लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुभ क्रियाएँ पूर्ण

कीं। स्नान आदि कर लेनेके परचात् अपने बड़े श्वशुर धृतराष्ट्र और गांधारीदेवीको कुन्तीदेवी गङ्गाके किनारे ले आयीं। वहाँ धन करानेवाले द्राष्टाणोनि राजाके सिधे एक बेबी तैयार की, जिसपर अग्निकी स्थापना करने उठेनि विधिवत् अग्निहोत्र किया। इस प्रकार नित्यकर्मसे निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र इन्द्रियसंयमपूर्वक नियमोंका पालन करते हुए अपने अनुयायियोंसहित गङ्गातटसे घनकर कुण्डोत्तमं जा पहुँचे और वहाँ एक आधमपर जाकर राजसि शतयूपसे मिले। वे राजसि पहले केकयवेशके राजा थे। अपने पुत्रकी राजसिहासनपर बिठाकर स्वयं वनमें घने माने थे। धृतराष्ट्र उन्हें साय लेकर महर्षि व्यासके आधमपर गये और वहाँ उन्होंने व्यासजीकी विधिवत् पूजा की। तत्पश्चात् उनसे वनवासकी बोझा लेकर वे शतयूपके आधमपर ही आकर रहने लगे। महामति राजा शतयूपसे व्यासजीकी आज्ञासे धृतराष्ट्रको वनमें रहनेकी सम्पूर्ण विधि बतला दी। अब महामना धृतराष्ट्र स्वयं भी तप करने लगे और अपने अनुचरोंको भी तपस्यामें सगा दिया। गांधारी देवी भी कुन्तीके साय बलकल और भृगुछाला धारण कर धृतराष्ट्रके समान ही बतका पालन करने लगीं। दोनों स्त्रियाँ इन्द्रियोंको अपने अधीन करके मन, वाणी, कर्म तथा नेत्रोंके द्वारा भी कठोर तपस्या करने लगीं। राजा धृतराष्ट्रके शरीरका मांस सूख गया। वे अस्थि-चर्मविशिष्ट होकर मस्तकपर जटा और शरीरपर भृगुछाला तथा बलकल धारण सिधे महर्षियोंकी भाँति तीव्र तपस्यामें प्रवृत्त हो गये। उनके



चित्तका सम्पूर्ण केंद्र हुए ही पला का। एवं ही करते हुए तथा उत्तम बुद्धिकाने नियुक्ती की कारणसे इतक ही धीरे धीरे शक्त प्राप्त सिधे करने लगे। उनके कर्मोंके फलसे ही उनके पुत्रोंके उत्पन्न होने लगे। उनके पुत्रोंके उत्पन्न होने लगे। उनके पुत्रोंके उत्पन्न होने लगे।

नारदजीका धृतराष्ट्रसे तपस्याका महत्व बतलाना और वनवासका प्रारम्भ पास जानेकी तैयारी करना

यैश्यायनजी कहते हैं—जनेत्रव्रज! तपनन्तर, राजा धृतराष्ट्रसे मिलनेके सिधे नारद, पर्यंत, महातपस्वी देवसि शिष्योंसहित महर्षि व्यासजी तथा अन्यत्प सिद्ध महर्षि बनी आये। परम धार्मिक राजसि शतयूप भी उनके साय पजारे थे। कुन्तीदेवीने उन सबका विधिवत् स्थापन-मन्त्रार सिधे और वे श्रद्धि भी कुन्तीकी सेवा और तपस्यामें बहुत सहाय हुए। उन्होंने राजा धृतराष्ट्रका मन समानेके सिधे ओकी धार्मिक कथाएँ सुनायीं। सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवायं देखसि नाराचने किती रूपाने प्रसंगमें यों कहला आरम्भ किया— 'राजन्! राजसि शतयूपके पितामह महाराज सहायसहाय केकयवेशके राजा थे। वे बड़े धीरसम्पद थे और कितीसे भी मघ नहीं मानते थे। उन्होंने अपने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्रको

राज्य देकर स्वयं बनेके सिधे रहने प्रवृत्त हुए। उनके सिधे तपस्याके सिधे तपसे ही उनके पुत्रोंके उत्पन्न होने लगे। उनके पुत्रोंके उत्पन्न होने लगे। उनके पुत्रोंके उत्पन्न होने लगे।

गति प्राप्त होगी। तपस्या पूर्ण होनेपर तुम अब्धुत तेजसे सम्पन्न होकर गान्धारीके साथ उपर्युक्त महात्माओंकी ही गतिको प्राप्त करोगे। राजा पाण्डु स्वर्गमें इन्द्रके पास रहकर सदा तुम्हारा स्मरण किया करते हैं। वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारी और गान्धारीकी सेवा करनेसे तुम्हारी यगस्विनी वधू कुन्ती भी अपने पतिके लोकमें पहुँच जायगी। यह युधिष्ठिरकी जननी है और युधिष्ठिर सनातन धर्मके साक्षात् स्वस्थ हैं (अतः इसकी सद्गतिमें तनिक भी संदेह नहीं है)। यह सब हम दिव्यदृष्टिसे देख रहे हैं। विदुरजी महात्मा युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश करेंगे और सञ्जय उन्हींका चिन्तन करनेके कारण यहाँसे सीधे स्वर्गको जायेंगे।

यह सुनकर महात्मा राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारदजीके वचनोंकी प्रशंसा करके उनकी विशेष पूजा की। तदनन्तर, समस्त ब्राह्मणोंने अत्यन्त प्रसन्न होकर नारदजीका बहुत ही आदर-सत्कार किया। इसके बाद राजा भी शतयूपने नारदजीसे कहा— 'प्रगबन्! आपकी बातें सुनकर यहाँ बैठे हुए सब लोगोंकी, कुरुराज धृतराष्ट्रकी तथा मेरी भी तपस्याविषयक श्रद्धा बहुत बढ़ गयी है। इस समय मैं राजा धृतराष्ट्रके सम्बन्धमें आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप सम्पूर्ण वृत्तान्तोंको ठीक-ठीक जानते हैं। मनुष्योंको जो तरह-तरहकी गति प्राप्त होती है, उसे आप अपनी दिव्यदृष्टिके द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं। आपने अनेकों राजाओंकी इन्द्रलोक-प्राप्तिका वर्णन किया, किन्तु यह नहीं बतलाया कि ये राजा धृतराष्ट्र किस लोकको जायेंगे। इन्हें कब और किस लोकको प्राप्ति होगी, इस बातको मैं सुनना चाहता हूँ; अतः आप ठीक-ठीक बतानेकी कृपा करें।'

शतयूपके इस प्रकार प्रश्न करनेपर दिव्य दृष्टिसम्पन्न महातपस्वी देवी नारदने उस समयमें सबके मनको सुहाने-वाली बात कही—'राज्ये! मैं एक बार घूमता-फिरता इन्द्रलोकमें गया और वहाँ मञ्जीपति इन्द्र तथा राजा पाण्डुसे मिला। वहाँ राजा धृतराष्ट्रकी इस कठोर तपस्याके विषयमें ही बात चल रही थी। उस समय साक्षात् इन्द्रके मुखसे मैंने यह सुना था कि अभी राजा धृतराष्ट्रकी आयु तीन वर्ष बाकी है, उसके समाप्त होनेपर ये गान्धारीके साथ कुचेरके लोकको जायेंगे और वहाँ राजराज कुचेरसे सम्मानित होकर विमानके द्वारा देव, गन्धर्व तथा राक्षसोंके लोकोंमें स्वेच्छानुसार विचरते रहेंगे। तपस्याके द्वारा इनका सारा पाप भस्म हो जायगा। यह देवताओंका गुप्त विचार है, परन्तु आप लोगोंपर प्रेम होनेके कारण मैंने इसे प्रकट कर दिया है। आपलोग वेदके धनी हैं और तपस्यासे निष्पाप हो चुके हैं

(अतः आपके सामने इस रहस्यको प्रकट करनेमें कोई हर्ष नहीं है)।'

देवीके ये मधुर वचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा धृतराष्ट्रको भी इससे बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार वे मनीषी महर्षियण अपनी कथाओंसे धृतराष्ट्रको संतुष्ट करके सिद्ध गतिका आश्रय लेकर इच्छानुसार विभिन्न स्थानोंको चले गये।

इधर, पाण्डवलोग धृतराष्ट्रके वनमें चले जानेसे बहुत दुःखी हो गये थे। उन्हें माताके बिछोहका भी कष्ट सता रहा था। पुरवासी मनुष्य भी धृतराष्ट्रके लिये निरन्तर शोकमान रहते थे। ब्राह्मणलोग सदा राजा धृतराष्ट्रके सम्बन्धमें इस प्रकार चर्चा करते थे—'हाय! हमारे बड़े महाराज निर्जन वनमें कैसे रहते होंगे? महाभाग गान्धारी तथा कुन्ती भी किस तरह दिन बिताती होंगी? पाण्डवोंके शोकको तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्हें अपनी बूढ़ी माताके लिये इतनी चिन्ता हुई कि वे अधिक कालतक नगरमें नहीं रह सके। वृद्ध पिता धृतराष्ट्र, महाभाग गान्धारी देवी तथा परम बुद्धिमान् विदुरजीकी विशेष याद आनेसे उनका मन न राज-काजमें लगता था, न स्त्रियोंमें; वेदाध्ययनमें भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। निरन्तर चिन्तामें डूबे रहनेके कारण वे तनिक भी शान्ति नहीं पाते थे। शोकने मानो उनके हृदयमें घर बना लिया था। किसी भी वस्तुको पाकर वे प्रसन्न नहीं होते थे। कोई आकर वार्तालाप करता तो भी वे उसकी किसी बातपर ध्यान नहीं देते थे, मानो उनकी सुध-बुध खो गयी हो। एक दिन अपनी माताकी याद करके वे परस्पर यों कहने लगे—'हाय! मेरी माँ कुन्ती अत्यन्त दुर्बल हो गयी हैं। वे उन दोनों बूढ़ोंको कैसे निमाती होंगी? शिकारी जन्तुओंसे भरे हुए जंगलमें आश्रयहीन राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ अकेले कैसे रहते होंगे? जिनके बान्धव मारे गये हैं, वे महाभाग गान्धारीदेवी उस निर्जन वनमें अपने अंधे और बूढ़े पतिकी सेवा किस प्रकार करती होंगी?' इस प्रकार बात करते-करते उनके मनमें बड़ी उत्कांठा हो गयी और उन्होंने धृतराष्ट्रके दर्शनकी इच्छासे वनमें जानेका विचार किया। उस समय सहदेवने राजा युधिष्ठिरको प्रणाम करके कहा—'भैया! जान पड़ता है आपका मन तपोवनमें जानेको उत्सुक हो रहा है—यह बड़ी बुद्धीकी बात है। मेरी तो बहुत दिनोंसे वहाँ चलनेकी इच्छा थी, पर आपके संकोचवश मैं स्पष्टरूपसे कह नहीं पाता था। सौभाग्यसे वह अवसर अपनेआप उपस्थित हो गया। माता कुन्ती तपस्यामें लगी होंगी, उनके सिरके बाल जटाके रूपमें परिणत हो गये होंगे और उनका वृद्ध शरीर कुश और कासके आसनोंपर शयन

करनेके कारण क्षत-विक्षत हो गया होगा; उनका दशन पाकर मैं अपना महोभाष्य समर्पूंगा।'

सहदेवकी बात सुनकर द्रौपदीदेवी राजाका साकार करके उन्हें प्रसन्न करती हुई बोली—'नाय ! मुझे अपनी सातके दशन कय होंगे ? क्या ये अभीतक जीवित हैं ? जीते-जी उनके चरणोंका दशन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अन्त-पुरकी सभी यहुएँ वनमें जाके लिये पैर आगे बढ़ाये लड़ी हैं; सबके मनमें कुन्ती, गान्धारी और समुरजीके दशनकी उत्कण्ठा है।'

द्रौपदीके ऐसा कहनेपर राजा मुधिष्ठिरने समस्त सेनापतियोंको बुलाकर कहा—'तुमलोग यहुत-से रथ और हाथी-घोड़ोंसे सुसज्जित सेनाके कूच करनेको तैयारी करो। मैं वनवासी महाराज घृतराष्ट्रका दशन करनेके लिये चलूंगा।' इसके बाद उन्होंने रनिवासके अध्यक्षको आता दी—'तुम सब लोग भ्रांति-भांतिके बाहनों और पालकियोंको हजारोंकी

संख्यामें तैयार करो। (आवयव नामागते तरे हृण) छकड़े, बाजार, बूचाने, राजागा, बागीर और कोराप्य— ये सब बुद्धकोके आधमकी ओर रवाना हो जायें। नगर-वासियोंमिते भी जो कोई महाराज वा दशन करना चाहा हो, उसे बेरोज-दोक गुविषापूर्वक और मुर्तितनकपते अपने दिया जाय। पाचसातके अध्यक्ष और शशोदये भोजन बनानेके सब सामानों तथा भ्रांति-भांतिके भण्ड-भोग्य पहायो-को छकड़ोंपर सादकर से चयें। नगरमें धोतना बता दिया जाय कि 'कत सबेरे यात्रा ही जायगी, इगनिये चन्नेवागोंको वितम्य नहीं करना चाहिये।' मार्गमें हमसोगोंके टहलनेके लिये आज ही कई तरफके बरे तैयार कर दिये जायें।' इस प्रकार आता देकर सबेरा होने ही भारपोंकीन राजा मुधिष्ठिरने रानी और बूढ़ोंको आगे करके नगरसे प्रस्थान किया। बाहर जाकर घृतराष्ट्री भनयोंकी प्रतीक्षा करने हुए वे पाँच दिनोंतक एक ही स्थानपर टिके रहे। फिर सबके साथ लेकर वनमें गये।

पाण्डवोंका परिवारसहित कुचक्षेत्रमें पहुँचकर घृतराष्ट्र आदिका दशन करना तथा सञ्जयका ऋषियोंसे उनका परिचय देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—'राजन् ! तदनन्तर, राजा मुधिष्ठिरने लोकपालके समान पराक्रमी अर्जुन आदि वीरों द्वारा सुरक्षित सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही सब लोग चल दिये। कुछ लोग सवारियोंसे जा रहे थे और कुछ लोग पैदल। कोई महान् वेगशाली घोड़ोंपर, कोई प्रज्वलित अग्निके समान दमकते हुए सुवर्णमय रथोंपर, कोई गजराजोंपर और कोई अँटोंपर सवार होकर यात्रा करते थे। नगर और प्रान्तके रहनेवाले मनुष्य भी घृतराष्ट्रका दशन करनेके लिये नाना प्रकारकी सकारियोंसे राजा मुधिष्ठिरके पोछे-पोछे गये। राजाके कयनानुसार सेनापति कृपाचाप भी सेनाके साथ लेकर आधमकी ओर चल दिये। घृतराज मुधिष्ठिर अनेकों ब्राह्मणोंसे घिरे हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय अनेकों भूत, मागघ और बंधोजन उनकी स्तुति करते चलते थे। उनके मस्तकपर श्वेत छत्र तथा हृष्टा या तथा रियियोंको बहुत बड़ी सेना उनके साथ चल रही थी। भयंकर कर्म करनेवाले भीमसेन पर्वतारहवी गजराजोंकी सेनाके साथ जा रहे थे। उन गजराजोंकी पीछपर अनेकों घन्र और आयुध सुसज्जित सिद्ध गये थे। माश्रीभुमार नहुन और सहदेव घोड़ोंपर सवार थे। महातेजस्वी जितेन्द्रिय अर्जुन सबके मोर्चेके अगे था दिया समुद्र, जो मयेंके समान देदीप्यमान हो

रहा था, सवार होकर राजा मुधिष्ठिरका अनुसरण करते थे। द्रौपदी आदि स्त्रियों भी शाबिकाओंमें बँधकर गरीबोंको असंख्य धन बाँटती हुई जा रही थीं। रनिवासके अध्यक्ष सब ओरसे उनकी रदा कर रहे थे। पाण्डवोंकी उग सेनामें रथ, हाथी और घोड़ोंकी अधिक्ता थी। जगमें बहो वेणु भज रहा था और कहीं बोगा। इन वायोंकी मुमुष्य र्णनिये युधत होनेके कारण उतारी बड़ी शोभा हो रही थी। कुरवंशी घोर नदियोंके समणोय तटों तथा अनेकों शरोपोंपर पड़ाव डालते हुए जमा: आगे बढ़ने गये। मरुनेत्रवी धुमुमु और पुरोहित धीम्य मुनि मुधिष्ठिरके मारेगगे हस्तिनपुरमें ही रहकर नगरकी रक्षा करते थे। उपर, राजा मुधिष्ठिर जमा: चलते-चलते परम पवित्र यमुना नदीके पार करके कुरवंशमें जा पहुँचे और वहाँ बुरगे ही जगहोने राजपिय शतपुर तथा कुरवंशी घृतराष्ट्रके आधमकी देता। इगगे सब सोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। समस्त पाण्डव भरती-अपनी सकारियोंके उत्तर पड़े और बुरगे ही पर्वत बगपर बड़ी विनयके साथ राजाके आधमपर आये। साथ आये हुए समस्त सैनिक, रागयके निवासी मनुष्य तथा कुरवंशके प्रधान पुरोहोंकी शिष्यों भी पर्वत ही आधमपर गयीं। घृतराष्ट्रके उस पवित्र आधमपर सब ओर मुणोंके मूँड दिवादी दे रहे

का मुन्दर उद्यान वहाँकी शोभा बढ़ा रहा था। ज्यों ही आश्रममें पहुँचे, त्यों ही बहूत-से व्रतधारी ज्यों ही आश्रममें पहुँचे, त्यों ही बहूत-से व्रतधारी ज्यों ही आश्रममें पहुँचे, त्यों ही बहूत-से व्रतधारी

यह मुनकर उन्हींके बताये हुए मार्गसे वे सबके-सब ही यमुना-तटकी ओर चल दिये। कुछ दूर जानेपर ही घृतराष्ट्र आदि सब लोग दूरसे आते दिखायी दिये। कर तो समस्त पाण्डव पिताके दर्शनकी इच्छासे बड़ी तेजीके साथ चलने लगे। सहदेव तो बड़े वेगसे दौड़कर कुन्तीके पास जा पहुँचे और माताके चरणोंमें पड़कर फूट-फूटकर रोने लगे। अपने प्यारे पुत्रको देखकर कुन्तीके मुखपर भी आँसुओंकी धारा बह चली आ गयी। तदनन्तर राजा हाथोंसे उठाकर छातीसे लगा लिया। तदनन्तर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुलको देखकर वे बड़ी उतावलीके साथ उनकी ओर चलीं। माताको आती देख तत्पश्चात् अपने नेत्रोंके आँसू पोंछकर उन्हींने गान्धारीसहित राजा घृतराष्ट्र और माता कुन्तीके चरणोंका विधिपूर्वक स्पर्श किया तथा उन सबके हाथोंके जलके भरे हुए कलश स्वयं ले लिये। उस समय रतिवासकी स्त्रियों तथा नगर और प्रान्तके रहनेवाले अन्य लोगोंने घृतराष्ट्रका दर्शन किया और राजा युधिष्ठिरने सब लोगोंका नाम और गोत्र बतलाकर परिचय दिया। परिचय पाकर घृतराष्ट्रने भी उन सबका स्तुति किया और उन सबसे धिक्कर वे आनन्दके आँसू बहाने लगे। उस समय उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो मैं पहलेकी भाँति ही हस्तियापुरके राजमहलमें बैठा हूँ। तदनन्तर द्रौपदी आदि वरुणोंने गान्धारी और कुन्तीसहित राजा घृतराष्ट्रको प्रणाम किया और उन्हींने भी उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध और चारणोत्तै सेवित अपने आश्रमपर आये। उस समय उनका आश्रम तारंगिसे भरे हुए आकाशकी भाँति दर्शकोंसे भरा था।

राजा घृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर आदि पाँचों भाइयोंके साथ आश्रममें विराजमान हुए, उस समय वहाँ अनेकों देशोंसे आये हुए महान् भाण्डशाली तपस्वी पाण्डवोंको देखनेके लिये पधारे हुए थे। उन्हींने पूछा—'यहाँ आये हुए लोगोंमें महाराज युधिष्ठिर कौन हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और

यशस्विनीं द्रौपदी देवी कौन हैं? हमलोग इन तीनों जानना चाहते हैं।' उनके इस प्रकार पूछनेपर सञ्जयने समस्त पाण्डवों तथा द्रौपदी आदि कुलकुलकी स्त्रियोंका परिचय देते हुए कहा—'ये जो सुवर्णके समान गोरे और ऊँची कदवाले हैं, जिनकी नासिका नुकीली और नेत्र बड़े-बड़े एवं कुछ लालिमा लिये हुए हैं, वे सिंहके समान बैठे हुए कुचराज युधिष्ठिर हैं। जो मतवाले गजराजके समान चलनेवाले, तपाये हुए सोनेके समान गौरवर्ण तथा मोटे और चौड़े कंधेवाले हैं, जिनकी भुजाएँ मांसल और विशाल हैं—इनका नाम भीमसेन है। इनके पास जो ये महान् धनुर्धर और श्याम रंगके तरुण दिखायी देते हैं, जिनके कंधे सिंहके समान ऊँचे और नेत्र कमलदलके समान विशाल हैं, वे वीरवर अर्जुन हैं। कुन्तीके पास जो दो श्रेष्ठ पुरुष बैठे दिखायी देते हैं, वे एक ही साथ उत्पन्न हुए नकुल और सहदेव हैं। रूप, बल और शीलमें इन दोनोंकी समानता करनेवाला संसारमें दूसरा कोई नहीं है। ये नील कमलके समान श्याम रंगवाली सुन्दरी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी तथा देवताओंकी देवी-सी जान पड़ती हैं, महारानी द्रौपदी हैं। इनके पास जो ये सुवर्णसे भी उत्तम कान्तिवाली देवी चन्द्रमा-की मूर्तिमती प्रभा-सी विराजमान हो रही हैं, वे अनुपम प्रभावशाली चन्द्रधारी भगवान् श्रीकृष्णकी बहिन सुमद्रा हैं। उधर, जो विशुद्ध सोनेके रंगवाली सुन्दरी देवी हैं, वे नाग-राजकन्या उलूपी हैं तथा जिनके शरीरका रंग नूतन मधुक-पुष्पोंकी शोभाको यात कर रहा है—वे राजकुमारी चित्रा हैं; वे दोनों भी अर्जुनकी ही पत्नियाँ हैं। यह ज-इन्देवरके समान श्याम वर्णवाली राजमहिলা विराजमान है, यह श्रीकृष्णके साथ टक्कर लेनेका हीसला रखनेवाला राजसेनपतिकी बहिन और भीमसेनकी पत्नी है। साथ यह जो चम्पाके समान गौर वर्णवाली सुन्दरी बँठी हुई है, मगधराज जरासन्धकी कन्या एवं माद्रीकुमार सहदेवकी पत्नी है। इसके पास जो नील कमलके समान श्याम रंगकी महिला है, वह माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र नकुलकी पत्नी है। जो तपाये हुए सुन्दरके समान गोरे रंगवाली कन्या एवं बालक लिये बँठी है, यह राजा विराटकी कन्या एवं राजकी धर्मपत्नी उत्तरा है। इनके सिवा, वे जितने सफेद चादर ओढ़े विधवावेपथे बँठी हुई हैं, जिनमें सिन्दूररूपान्वय दिखायी देते हैं—ये सब दुर्वाग्र भाइयोंकी पत्नियाँ और इन बड़े महाराजकी पत्नी हैं। इनके पति और पुत्र रणमें मारे जा चुके हैं आपके प्रश्नके अनुसार मैंने इनमेंसे मुख्य-मुख्य परिचय दे दिया।'

इस प्रकार सज्जयके मुँहसे सयका परिचय पाकर वे सभी तपस्वी चले गये। पाण्डवोंके सैनिकोंने बाटूनोंको सोतकर आश्रमकी सोमाके बाहर पड़ाव डाल दिया तथा स्त्री, दूध

और बातचीतों समुदाय छावनीमें गुप्तदूरक विधान लीये सगा। उस समय राजा धृतराष्ट्र पाण्डवोंके नियन्त्रण-समाचार पूजने लगे।

धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा विदुरजीका युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश

धृतराष्ट्रने पूछा—युधिष्ठिर! तुम नगर और प्रान्तकी समस्त प्रजाओं तथा मादयोसहित कुशलसे लो हो न? तुम्हारे आश्रममें रहकर जीवन-निर्वाह करनेवाले मन्त्री, नौकर-चाकर और गुरुजन नीरोग हैं न? क्या वे तुम्हारे राज्यमें बैठकें रहते हैं? क्या तुम प्राचीन राजपरिषदोंसे सचित पुरानी रीति-नीतिका पालन करते हो? अन्यायसे तो अपना राजता नहीं भरते? शत्रु, मित्र और उदासीन पुरुषोंके साथ यथायोग्य बतविच करते हो न? क्या तुम्हारे स्वभाव और वर्णाने ग्राह्य संतुष्ट रहते हैं? पुरवासो, सेवक और स्वजनोंको तो बात ही क्या, शत्रुओंको भी तुम अपने सद्ब्यवहारेसे संतुष्ट रखते हो न? क्या तुम धन्दापूर्वक पितरों और देवताओंकी पूजा तथा अन्न और जलके द्वारा अतिथियोंका सत्कार करते हो? क्या तुम्हारे राज्यमें ग्राह्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा कुटुम्बोजन न्यायमार्गका अवलम्बन करते हुए अपने बतव्य-का पालन करते हैं? स्त्री-बालक और युद्ध पुरुषोंको दुःख तो नहीं उठाना पड़ता? वे जीविकाके लिये भीत तो नहीं मांगते? तुम्हारे घरमें बहु-वेदियोंका आदर तो होता है न?

यैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! धृतराष्ट्रके इस प्रकार कुशल-समाचार पूछनेपर बातचीत करनेमें कुशल न्यायवेत्ता राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार कहा—‘राजन्! मेरे यहाँ सब कुशल है। आपके तप, इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह आदि सद्गुणोंकी वृद्धि तो हो रही है न? मेरी माता कुन्तीकी आपकी सेवा-शुश्रूषा करनेमें कुछ बलसा तो नहीं होता? क्या इनका वनवास सार्थक होगा? मेरी बड़ी माता गान्धारी देवी, जो घोर तपस्यामें संलग्न हो रही हैं, युद्धमें मारे गये अपने महापराश्रमी पुत्रोंके लिये कभी शोक तो नहीं करती? पिताजी! ये सज्जय तो कुशलपूर्वक तपस्या कर रहे हैं न? इस समय विदुरजी कहाँ हैं? वे अवतक नहीं दितायी दिये।’

युधिष्ठिरके इस प्रकार प्रश्न करनेपर धृतराष्ट्रने कहा—‘धेडा! विदुरजी कुशलपूर्वक हैं। वे बड़ी बटोर तपस्यामें सगे हैं। निरन्तर उपवास करते और वायु पीकर रहनेके कारण अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं। उनके शरीरकी सान्जम दिशापी देती है। इस निर्जन वनमें कभी-कभी ग्राह्यपौरों

उनके वान हो जाया करते हैं।’ राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि गुप्तमें पत्थरका दृक्का लिये उदासीनी विदुरजी दूरसे आगे दिशापी पड़े। उनका मन-अर्थग शरीर अत्यन्त दुर्बल और पानी-सूत्र-निर्माणमें भरा दिशापी देता था। ये आश्रमकी ओर देखाकर गयता सोच पड़े। पर देण राजा युधिष्ठिर अरेसे ही उनके सोच-सोचें हीं। विदुर-जी कभी दिशापी देने और कभी अदृश्य हो जाने थे। इस प्रकार वे घोर जंगलकी ओर बढ़ते चले गये और युधिष्ठिर पर बढ़ते हुए चलपूर्वक दौड़ने जा रहे थे कि ‘विदुरजी! मैं आपका परम मित्र राजा युधिष्ठिर हूँ (अतः बतनेके लिये आया हूँ)। इस प्रकार अत्यन्त निर्जन और एकल वनमें पहुँचकर युधिष्ठिरने धेष्ट विदुरजी एक पेशके लिये गये



हो गये। वे इनके दुर्बल हो चले थे। पर उनका शरीरका दीर्घामात्र रू तथा वा किर भी परम बहिष्कार परिष्कार उन परहवान लिया और वे युधिष्ठिर हैं—समा कहने लगे।

उनके सामने जाकर खड़े हो गये। साथ ही उन्होंने राजीका सत्कार भी किया।

तदनन्तर, महात्मा विदुरजी एकाग्रचित्त होकर राजा विठ्ठलकी ओर एकदृक देखने लगे। वे अपनी दृष्टिको ही दृष्टिमें, शरीरको शरीरमें, प्राणोंको प्राणोंमें और व्यक्तियोंको इन्द्रियोंमें मिलाकर उनके साथ एकाकार हो गये। प्रकार अपने तेजसे प्रज्वलित होते हुए विदुरजीने धर्मके शरीरमें प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिरने देखा विदुरजी आँसू पूर्ववत् स्थिर हैं और उनका शरीर भी पहलेकी भाँति वृक्षके सहारे खड़ा हुआ है, किंतु अब उसमें शक्ति नहीं रह गयी है। इसके विपरीत उन्होंने अपनेमें शक्ति और अधिक गुणोंका अनुभव किया। अब वे मनमें विदुरजीके शरीरका दाह-संस्कार करनेकी इच्छा। इतनेमें आकाशवाणी हुई—'राजन्! विदुरजी तपधर्मका पालन करते थे, अतएव उनके शरीरका दाह

न करो; यही सनातन धर्म है। उन्हें सांतातिक नामक लोकोंकी प्राप्ति होगी, अतः उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये।'

यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहाँसे लौट गये और उन्होंने राजा धृतराष्ट्रके पास जाकर उनसे सारी बातें बतायीं। विदुरजीके देह-त्यागका अद्भुत समाचार सुनकर तेजस्वी राजा धृतराष्ट्र तथा भीमसेन आदि सब लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद धृतराष्ट्रने युधिष्ठिरसे कहा—'बेटा! मेरे दिये हुए फल, मूल और जलको ग्रहण करो। मनुष्यके पास अपने उपभोगमें आनेवाली जो वस्तु हो, उसीसे उसको अतिथिका भी सत्कार करना चाहिये।' उनके इस प्रकार कहनेपर युधिष्ठिरने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उनके दिये हुए फल-मूलका भाइयोंसहित भोजन किया। तत्पश्चात् सब लोगोंने वृक्षोंके नीचे रहकर वह रात्रि व्यतीत की।

युधिष्ठिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना और महर्षि व्यासका धृतराष्ट्रको सान्त्वना देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! तदनन्तर, रात जानेपर राजा युधिष्ठिर पूर्वार्द्धकालीन नैत्यिक नियमोंसे तैयार होकर धृतराष्ट्रकी आज्ञा ली मृगियोंके आश्रम देखनेके लिये चले। उनके साथ भीमसेन आदि चारों भाई, अन्तःपुरी स्त्रियाँ, नौकर-चाकर और पुरोहित भी थे। उन्होंने पूर्वक मिस्र-मिस्र स्थानोंपर घूमकर देखा—वैदियोंपर नया प्रज्वलित है और स्नान करके बैठे हुए ऋषि-मुनि धृति दे रहे हैं तथा कहीं-कहीं वेदोंका स्वाध्याय करनेवाले ब्रह्मन् अपनी मनोहर ध्वनिसे आश्रमोंको शोभा बढ़ा रहे। उस समय राजा युधिष्ठिरने तपस्त्रियोंके लिये साथे हुए चले और ताँबेके कलश, मृगचर्म, कम्बल, रुक्, सूवा, पण्डल, बटवोई, पाली तथा लोहेके बने हुए भाँति-भाँतिके न बंटे। जिसने जितने और जो-जो वर्तन मण्डि, उनको ले और वे ही वर्तन दिये गये। इस प्रकार धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर आश्रमोंमें घूम-घूमकर घन वान्तके पश्चात् धृतराष्ट्रके आश्रमपर लौट आये। वहाँ आकर उन्होंने देखा राजा धृतराष्ट्र नित्यकर्म करके गान्धारीके साथ शान्त-वसे बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ी दूरपर शिष्टाचारका पालन करनेवाली माता कुन्ती शिष्याकी भाँति विनीत भावसे खड़ी। युधिष्ठिरने अपना नाम बताकर धृतराष्ट्रको प्रणाम किया और बैठनेकी आज्ञा मिलनेपर वे कुशासनपर बैठ गये। भीमसेन आदि भी उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञासे बैठ

गये। इन सबके बैठ जानेपर कुशक्षेत्रनिवासी शतपुत्र आदि महर्षियों और महातेजस्वी भगवान् व्यासने दर्शन दिया। व्यासजीके साथ अनेकों देवर्षि तथा शिष्यकुन्द भी थे। राजा धृतराष्ट्र तथा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर और भीमसेन आदिने उठकर उन सबको प्रणाम किया। व्यासजीने धृतराष्ट्रको बैठनेकी आज्ञा दी और स्वयं एक सुन्दर कुशासनपर, जो काले मृगचर्मसे आच्छादित तथा उन्हींके लिये बिछाया गया था, विराजमान हुए। फिर व्यासजीकी आज्ञासे अन्य ऋषि-महर्षि भी चारों ओर कुशाकी चटाइयोंपर बैठ गये।

तदनन्तर, सत्यवतीनन्दन व्यासजीने धृतराष्ट्रसे पूछा—'राजन्! तुम्हारी तपस्या ठीक-ठीक चल रही है न? वनवासमें तुम्हारा मन तो लगता है न? अब कभी तुम्हारे मनमें अपने पुत्रोंके मारे जानेका शोक तो नहीं होता? तुम्हारी समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ निर्मल तो हो गयी हैं न? क्या तुम अपनी बुद्धिको दृढ़ करके वनवासके कठोर नियमोंका पालन करते हो? मेरी बहू गान्धारी बड़ी बुद्धिमती है। यह धर्म और अर्थको समझनेवाली और जन्म-मरणके तत्त्वको जाननेवाली है; इसे तो कभी शोक नहीं होता? तथा यह कुन्ती—जिसने अपने पुत्रोंकी ममता छोड़कर गुरुजनोंकी सेवामें मन लगाया है, अभिमानरहित होकर तुम्हारी शुश्रूषा करती है न? क्या तुमने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवको धीरज बँधाया है? इन्हें देखकर तुम्हें प्रसन्नता

संज्ञा संज्ञा है। मेरे पानी पुत्रने पृथ्वीका राज्य
के लोभसे शान्तनूवन्द्य भोज्य और बृह द्राह्मण
जाचपके साथ ही बहुत बड़ी सैनिकी मरवाकर सन्त
का संहार कर डाला—इन सब बातोंका निरन्तर स्मरण
के मैं दिन-रात अतृप्तकी भाँसे चलता रहता हूँ।
शोकके आघातसे एक झगके लिये भी मुझे शान्ति
ही मिलती।

राजाके मृतप्रायका शान्ति-मार्गसे विनाश मुनकर
जाचपके शोक निर न्यास्ता हो गया। वे पुत्र-शोकसे
बहुल होकर खड़ी हो गयीं और अपने श्वशुरसे हाथ जोड़-
कर बोली—मुनिवर! इन महाराजकी अपने मेरे हुए
पुत्रके लिये शोक करते आज सोलह वर्ष बीत गये; किंतु
अपत्तक इन्हें शान्ति न मिली। पुत्र-शोकसे संतप्त होकर ये
सब बह भरोते रहते हैं; रात-दिन इनको नींद नहीं आती
(अतः एक बार आप इन्हें इनके पुत्रोंसे मिला दीजिये, इसीसे
इनका दुःख मान्य होगा)। आप अपने तपोव्रतसे सम्पूर्ण
सौभाग्यकी तथा सृष्टि कर सकते हैं; फिर राजाको इनके
परलोकवासी पुत्रोंसे मिला देना आपके लिये कौन बड़ी बात
है। इन्द्रवह्निकारी कृष्णा मुझे अपनी सन्त पुत्र-वधुओंमें
सबसे बड़कर प्रिय है। इस देवकारिके भाई-वन्धु और पुत्र
समी मारे गये हैं, जिससे यह अत्यन्त शोकमग्न रहा करती
है। इस कल्याणमय वचन बोलनेवाली श्रीकृष्णकी वहिन
मुनदा भी अमिमन्थके बंधने संतप्त होकर दिन-रात शोकमें
ही डूबी रहती है। और ये ही भूरिश्रवाकी धनपत्नी; इन्हें
भी अपने स्वामीके मारे जानेका बड़ा दुःख है। इन महाराजके
को भी पुत्र स्याङ्गणमें मारे गये हैं, उनकी ये ती स्त्रियाँ बँधी
हैं। ये मेरी विधवा बहूएँ दुःख और शोकके आघात सहन
करती हुई मेरे और महाराजके भी शोकको बड़ा रही हैं।
मेरे महात्मा श्वशुर भीष्मकी तथा महारथी सौमदत्त आदि
जिन गतिनी प्राप्त हुए होंगे, यह महान् संवेह दूर नहीं होता।
भगवन्! आप ऐसी कृपा करें जिससे इन महाराजका, मेरा
तथा आरकी वधु कुन्तीका भी शोक दूर हो जाय।

गांधारी जब इन प्रकार कह रही थी, उसी समय
कुन्तीने गुणवन्धसे उत्पन्न हुए सूर्यके समान तेजस्वी अपने
पुत्र कर्णका स्मरण किया। भगवान् ध्यासने उन्हें हुन्ती देख-
कर कहा—बिंदी! यदि तुम्हें भी किसी कामके लिये कुछ
करना हो तो कहो। यह मुनकर कुन्तीदेवीने मस्तक मुका-
कर अपने श्वशुरके चरणोंमें प्रणाम किया और कुछ लज्जित-
नी होकर प्रार्थना करनेकी प्रकट करते हुए रहीं—भगवन्!
आप मेरे श्वशुर हैं, मेरे देवताके भी देवता हैं; अतः मेरे
लिये देवताओंसे भी बड़कर हैं। मैं आपके सामने (अपने

जीवनका गुप्त रहस्य प्रकट करती हूँ) सच्ची बात बता रही
हूँ, मुनिये। एक समयकी बात है—परम श्रेयो महर्षि
दुर्वासा मेरे पिताके यहाँ भिक्षाके लिये आये थे। मैंने उन्हें
अपनी की हुई सेवाओंके द्वारा संतुष्ट कर लिया। मेरा बर्ताव
पवित्र और हृदय शुद्ध था। मेरे द्वारा उनका कोई अपराध
नहीं हुआ। श्रेय करनेके अनेकों अवसर लाये; किंतु एकबार
भी मैंने उनपर श्रेय नहीं किया। इससे संतुष्ट होकर वे
महाभुजि मुझे बरवान देने लगे। उन्होंने कहा—मेरा दिया
हुआ बरवान तुम्हें अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी
बात मुनकर मैं शापके डरसे दौली—‘आपकी जो आज्ञा हो,
मुझे स्वीकार है।’ तब वे पुनः बोले—‘भद्रे! तुम जित-जित
देवताओंका आवाहन करोगी, वे सभी तुम्हारे अधीन हो
जायेंगे।’ यों कहकर वे अन्तर्धान हो गये। यह मुनकर मैं
बड़े आश्चर्यमें पड़ गयी। किसी भी अवस्थामें उनकी बात
मुझे भूलती नहीं थी। एक दिन मैं अपने महलकी छतपर
खड़ी थी। उसी समय सूर्यदेवका उदय हुआ। महर्षि
दुर्वासाके वचनोंका स्मरण करके मैं चाहमरी दृष्टिसे उनकी
ओर देखने लगी। इतनेहीमें भगवान् सूर्य मेरे पास आकर
खड़े हो गये। वे दो शरीर धारण करके एकसे सम्पूर्ण विश्वको
प्रकाशित करते रहे और दूसरेसे मेरे पास आ गये थे। उन्हें
देखकर मैं कांप उठी। उन्होंने आते ही कहा—देवि!
मुझे कोई वर माँगो; किंतु मैंने उनके चरणोंमें प्रणाम करके
कहा—‘भगवन्! मुझे कुछ नहीं चाहिये। आप कृपा करके
चले जाइये।’ वे बोले—‘देवि! मेरा आवाहन व्यर्थ नहीं
हो सकता। तुम कोई-न-कोई वर अवश्य माँग लो, अन्त्या
में तुम्हें और तुम्हारे बरदाता ब्रह्मणको भी मस्त कर
डालूँगा।’ तब मैंने कहा—‘भगवन्! मुझे आपके समान
पुत्र पैदा हो।’ इतना कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके
अपने तेजके द्वारा मेरे शरीरमें प्रविष्ट हो गये। तत्पश्चात्
बोले—‘देवि! तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा।’ यों कहकर वे
आकाशमें चले गये। तबसे मैं इस वृत्तान्तकी पिताजीसे
गुप्त रखनेके लिये महलके भीतर ही रहने लगी और जब
गुणवन्धसे पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसे मैंने पानीमें बहा दिया।
वही मेरा कर्ण था। उसके जन्मके बाद मैं पुनः भगवान्
सूर्यकी कृपासे कल्याणवादी प्राप्त हो गयी। मेरा वह कार्य
पाप ही था अमाप, मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया।
यदि पाप भी हो तो आप उसे दूर कर सकते हैं। इस समय
मैं अपने उसी पुत्र कर्णको देखना चाहती हूँ। राजा धृतराष्ट्रके
हृदयकी बात भी आपको ज्ञात ही हो चुकी है, अतः इनकी इच्छा
भी अभी पूर्ण होनी चाहिये।

कुन्तीके इस प्रकार कहनेपर देवदेताओंमें श्रेष्ठ महर्षि

ध्यासने कहा—'बेटी ! तुमने जो कुछ कहा है, वह सब सत्य है। ऐसी ही होनहार थी; इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है; क्योंकि उस समय तुम अभी कुमारी बानिजा थी। वेचतालोग अणिमा आदि ऐश्वर्योत्तै सम्पन्न होने हैं, अतः


गुणोंके शरीरमें प्रकट हो जाने हैं। वे संकल्प, ब्रह्म, इन्द्रि, स्वर्ग और ह्योन्पातमात्रने भी पुत्र उत्पन्न कर लयने हैं। देवधर्मके द्वारा मनुष्यधर्म ब्रूवित करी होगा—तैमा अतःकर तुम अपनी मानसिक चिन्तना त्याग कर हो।'

धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा व्यासजीका मरे हुए वीरोंको प्रकट करके उन्हें उनके सम्बन्धियोंसे मिलाना

अब महर्षि ध्यासने गान्धारीसे कहा—'बेटी गान्धारी ! आज रातमें तुम अपने पुत्रों और भाइयोंका दर्शन करोगी। कुन्ती कर्णको, सुभद्रा अभिमन्युको तथा द्रौपदी अपने पिता, पुत्र और भाइयोंको देखेगी। तुम सब सोगोंको उन महात्मा क्षत्रियोंके लिये शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहकर ही मृत्युको प्राप्त हुए हैं। यह देवताओंका कर्ण था और इसी रूपमें होनेवाला था; इसलिये सम्पूर्ण देवता अपने-अपने अंशसे पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए थे। गन्धर्वोंके राजा धृतराष्ट्र ही इस मनुष्यलोकमें अवतीर्ण होकर तुम्हारे पति हुए हैं। महाराज पाण्डु देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान् विष्णु के अंशसे अवतीर्ण हुए थे। विदुर और युधिष्ठिर धर्मके अंशवातार हैं, दुर्योधनको कलिपुत्र और शकुनिको द्वारकामन्मो। दुःशासन आदि सभी भाई राक्षस थे। महाबली भीमसेन मरुद्गणोत्तै उत्पन्न हुए हैं। अर्जुनको पुरातन ऋषि नर और भगवान् श्रीकृष्णको नारायण जानो, नकुल और सहदेव अश्विनोकुमारोंके अवतार हैं। युद्धमें जिसे छः महारथियोंमें मितकर मारा था, वह सुभद्राका पुत्र अभिमन्यु साधात्त घनद्रमाका अंश था, और कर्णके रूपमें स्वयं सूर्यदेव अवतीर्ण हुए थे। द्रौपदीके साथ उत्पन्न हुआ घृष्टछम्न अनिका अंश था और शिशुण्डी राक्षस था। द्रोणाचार्य बृहस्पतिके अंश थे और अश्वत्थामा भगवान् शंकरके अंशसे उत्पन्न हुआ था। गङ्गानन्दन भीम मनुष्यभावको प्राप्त हुए एक पशु थे। इस प्रकार ये सब देवता कर्णवशा मनुष्ययोनिमें अवतीर्ण हुए थे और अब अपने अवतारका उद्देश्य पूरा करके पुनः स्वर्गको चले गये हैं। तुम सब सोगोंके हृदयमें पारलौकिक भयके कारण जो चिरकालसे दुःख भरा हुआ है, उसे आज दूर कर दूंगा। इस समय सब सोग गङ्गाजीके तटपर चले। यहाँ सबको अपने मरे हुए पुत्रोंके दर्शन होंगे।' यशस्वाम्यनजी कहते हैं—'राजन् ! महर्षि ध्यासके यचन सुनकर सब सोग सिंहके समान गर्जना करते हुए प्रसन्नतापूर्वक गङ्गातटकी ओर चल दिव्ये। राजा धृतराष्ट्र अपने मन्त्री, पाण्डव, मृनिगण और १०००समुदायके साथ

गङ्गाजीके समीप गये। धीरे-धीरे वह साग सङ्गमनू गङ्गानदपर जा पहुँचा और सब सोग अन्ती-अन्ती रुचि तथा मुविद्याके अनुसार जहाँ-जहाँ टट्टर गये। पुन राजाजीके देखनेकी इच्छामे सभी सोग वहाँ रात होनेको प्रतीक्षा करने लगे। यह दिन उन्हें सौ वर्षोंके समान ज्ञान प्राप्त। तदनन्तर जब सूर्यनारायण अस्त हो गये और रात होनेको आनी, तो सब सोग सायंकात्के मंत्रिक नियमोंमें निद्रम होकर भगवान् ध्यासके समीप गये। धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर पाण्डवों और ऋषियोंके साथ ध्यासजीके निकट जा बंटे। कुरुकुलकी सित्र्ज्य गान्धारीके साथ बंट गयी और नगर तथा प्रान्तके निवासी भी अक्षयकात्के अनुसार यथात्पान विराजमान हो गये।

तदनन्तर महानेजस्यो मृनिवर ध्यासजीने मागीरमीने



पवित्र जलमें प्रवेश किया और पाण्डव-कौरव-पक्षके समस्त योद्धाओं तथा मित्र-भिन्न देशोंके निवासी राजाओंका आवाहन किया। उस समय पानीके भीतर वंसी ही तुमुलध्वनि सुनायी पड़ी, जैसी कुशक्षेत्रमें कौरव-पाण्डव सेनाओंके एकत्रित होनेपर सुनी गयी थी। थोड़ी ही देरमें भीष्म और द्रोणाचार्य आदि हजारों वीर अपने सैनिकों सहित जलसे बाहर निकल आये। पुत्रों और सेनाओंसहित राजा विराट, द्रुपद, द्रौपदीके पाँचों पुत्र, सुभद्रानन्दन अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, कर्ण, दुर्योधन, शकुनि और दुःशासन आदि धृतराष्ट्रके पुत्र, जरासन्धकुमार सहदेव, भगदत्त, जलसन्ध, भूरिश्रवा, शल, शल्य, भ्राताओंसहित वृषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न, और शिखण्डीके पुत्र, अपने छोटे भाईसहित धृष्टकेतु, अचल, वृषक, राक्षस अलायुध, बाह्लीक, सोमवत्त, चैकितान तथा और भी बहुत-से वीर, जो संख्यामें अधिक होनेके कारण नाम लेकर नहीं बताये गये हैं, देदीप्यमान शरीर धारण करके जलसे प्रकट हुए। जिस वीरका जैसा वेप, जिस तरहकी ध्वजा और जैसा बाहन था, वह उसीसे युक्त दिखायी पड़ा। सबने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, सभीके कानोंमें दिव्य कुण्डल जगमगा रहे थे। उस समय वे वैर, अहंकार, क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे। गन्धर्व उनका यश गाते और वंदोजन उनकी स्तुति करते थे।

सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासने प्रसन्न होकर अपने तपके प्रभावसे राजा धृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र प्रदान किये। यशस्विनी गान्धारी भी दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न हो चुकी थीं। उन दोनोंने युद्धमें मरे हुए पुत्रों तथा अन्य सम्बन्धियोंको देखा। वह बड़ा ही अद्भुत, अचिन्त्य और अत्यन्त रोमाञ्चकारी दृश्य था। प्रजावर्गके सब लोग आश्चर्यमग्न होकर एकटक दृष्टिसे उस घटनाको देखने लगे। राजा धृतराष्ट्र व्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रोंको देखते हुए आनन्दमग्न हो गये।

तत्पश्चात् क्रोध और मात्सर्यसे रहित एवं पापशून्य हुए वे सभी नरश्रेष्ठ वीर ब्रह्मर्षियोंकी बनायी हुई उत्तम प्रणालीके अनुसार एक दूसरेसे प्रेमपूर्वक मिले। उस समय सबके मनमें उल्लास छा रहा था। पुत्र पिता-माताके साथ, स्त्री पतिके साथ, भाई भाईके साथ और मित्र मित्रके साथ मिलने लगे। पाण्डवोंने सुभद्रानन्दन अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंको वड़े हर्षमें भरकर छातीसे लगाया। फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ कर्णसे मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण वार्ताव किया। इसी प्रकार वे सब लोग गुरुजनों, वाग्धवों और पुत्रोंके साथ मिले। सारी रात एक दूसरेके साथ धूमने-फिरनेके कारण उनके मनमें बड़ा आनन्द हुआ। वहाँ किसीके

हृदयमें शोक, भय, वास, उद्वेग और अपयशको स्थान नहीं मिला। वहाँ आयी हुई स्त्रियाँ अपने पिता, भाई और पुत्रोंसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुईं। उन सबका मानसिक दुःख दूर हो गया। वे वीर और उनकी वे तरुणी स्त्रियाँ एक रात साथ-साथ रहे और अन्तमें एक दूसरेकी अनुमति ले परस्पर गले मिलकर जैते आये थे, उसी प्रकार चले जानेको उद्यत हुए। तब मुनिवर व्यासजीने उन सबका विसर्जन कर दिया और वे एक ही क्षणमें सबके देखते-देखते गङ्गाजीमें डुबकी लगाकर अदृश्य हो गये; रथों और ध्वजाओंसहित अपने-अपने लोकोंमें चले गये। कोई देवलोकमें गये और कोई ब्रह्मलोकमें। कुछ लोग वरुण, कुबेर और सूर्यके लोकोंमें गये। कितने ही राक्षसों और पिशाचोंके लोकोंमें चले गये। इस प्रकार सबको विचित्र-विचित्र गतियोंकी प्राप्ति हुई थी और वहाँसे वे देवताओंके साथ अपने-अपने बाहनों तथा अनुचरोंसहित आये थे।

उन सबके अदृश्य हो जानेपर महामुनि व्यासजीने जलमें खड़े-खड़े उन विधवा स्त्रियोंसे कहा—'देवियो! तुमलोगोंमेंसे जो-जो अपने-अपने पतिके लोकमें जाना चाहती हो, वे आलस्य त्यागकर तुरंत गङ्गाजीके जलमें गोता लगावें।' उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखनेवाली सती स्त्रियाँ गङ्गाजीमें कूद पड़ीं और मनुष्य-शरीरसे छुटकारा पाकर अपने-अपने पतिके साथ चली गयीं। इस प्रकार उत्तम शील और पतिव्रतका पालन करनेवाली सभी क्षत्रिय-बालाएँ पतिलोकको प्राप्त हुईं। पतियोंकी ही भाँति उनके शरीर दिव्य हो गये; उनके वस्त्र, आभूषण और मालाएँ भी दिव्य ही थीं। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे समस्त सद्गुणोंसे सम्पन्न होकर विमानपर आरूढ़ हो अपने-अपने योग्य स्थानको चली गयीं। उस समय जिसके-जिसके मनमें जो-जो कामना हुई, धर्मवत्तल भगवान् व्यासने वह सब पूर्ण की। संग्राममें मरे हुए राजाओंके पुनरागमनका वृत्तान्त सुनकर मित्र-भिन्न देशके मनुष्योंको बड़ा ही आश्चर्य और आनन्द हुआ। जो मनुष्य कौरव-पाण्डवोंके प्रियजन-सनागमका यह वृत्तान्त भलीभाँति श्रवण करेगा, उसे इहलोक और परलोकमें भी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होगी, अनायास ही इष्ट-वन्धुओंसे मिलन होगा तथा उसे कोई दुःख-शोक नहीं सतावेगा। जो विद्वान् दूसरे समरुदार व्यक्तियोंको यह प्रसंग सुनावेगा, वह इस लोकमें यश और परलोकमें सद्गति प्राप्त करेगा। स्वाध्यायपरायण, तपस्वी, सदाचारी, जितेन्द्रिय, दानके द्वारा पापरहित, सरल, शुद्ध, शान्त, अहिंसक, सत्यवादी, आस्तिक, श्रद्धालु और धैर्य धारण करनेवाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्वको सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे।

जनमेजयको परीक्षितके दर्शन और युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरको लौटना

जनमेजयने कहा—ब्रह्मन् ! यदि वरदाता भगवान् व्यासजी मेरे पिताका भी उसी रूप, वेध और अवस्थामें दर्शन करा दें तो आपकी बत्तापी हुई सारी बातोंपर मुझे विश्वास हो जायगा और उस अवस्थामें मैं कृतार्थ होकर आजीवन कृतज्ञ बना रहूँगा। आज महर्षिको कृपासे मेरी इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिये।

राजाके इस प्रकार कहनेपर परम प्रतापी महर्षि व्यासने जनपर कृपाकी और उनके पिता परीक्षितको उस यज्ञ-भूमिमें बुला दिया। राजाने देखा—पिताजी उसी रूप, वेध और अवस्थामें आकाशसे उतर आये। उनके साथ महात्मा शमीक और उनके पुत्र शृङ्गी ऋषि भी थे। राजा परीक्षितके जो मन्त्री थे, वे भी यहाँ दिलायी दिये। तदनन्तर, राजा जनमेजयने अत्यन्त प्रसन्न होकर यज्ञान्तस्नानके समय पहले अपने पिताको नहलाया, फिर स्वयं स्नान किया। स्नानके पश्चात् उन्होंने याषायर-कुलमें उत्पन्न जरत्कारणन्दन आस्तीकसे कहा—‘विप्रवर ! मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरा यह यज्ञ भ्रांति-भ्रांतिके आश्चर्योंका केन्द्र हो रहा है; क्योंकि आज मेरे शोकका नाश करनेवाले पिताजी भी यहाँ उपस्थित हो गये।’

आस्तीकने कहा—राजन् ! जिसके यज्ञमें तपस्याके निधि पुराणपुरुष महर्षि व्यासजी विद्यमान हो, उसकी दोनों लोकोंमें विजय है। तुमने यह विचित्र उपाख्यान सुना, तुम्हारे शत्रु संपर्ण भस्म होकर तुम्हारे पिताको ही पदवीको पहुँच गये। तुम्हारी सत्यपरायणताके कारण किसी तरह तक्षकके प्राण बच गये हैं। तुमने समस्त ऋषियोंकी पूजा की, महात्मा व्यासजीके प्रभावका दर्शन किया और इस पाप-नशक कथाको सुनकर महान् धर्म प्राप्त किया। उदार हृदयवाले संतजनोंके दर्शनसे तुम्हारे हृदयकी गाँठ टूट गयी—तुम्हारा सारा संदेह दूर हो गया। अब, जो धर्मके पक्षका समर्थन करनेवाले हैं, जिनकी सदाचारके पालनमें रचि रहती है तथा जिनके दर्शनसे पापका नाश होता है, उन महात्माओंको तुम्हें नमस्कार करना चाहिये।

सौंति कहते हैं—विप्रवर आस्तीकको यह बात सुनकर राजा जनमेजयने महर्षि व्यासका बारंबार पूजन और सत्कार किया। तत्पश्चात् भूनिवर वंशम्पायनजीसे पूछा—‘ब्रह्मन् ! राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरने पुत्रों, पौत्रों और सम्बन्धिपत्तियों मिलनेके बाद फिर क्या किया?’

वंशम्पायनजीने कहा—राजन् ! राजर्षि धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंका दर्शनरूप महान् चमत्कार देखकर शोकसे रहित
म० भा०—२०९


हो पुनः अपने आधमपर चले आये। अन्य सब लोग तथा महर्षिगण भी उनसे विदा लेकर अपने-अपने अमीष्ट स्थानोंपर चले गये। महात्मा पाण्डव सैनिकों और स्त्रियोंको साथ लेकर धृतराष्ट्रके पीछे-पीछे गये। आधमपर पहुँचकर सोः-पूजित महर्षि व्यासने धृतराष्ट्रसे कहा—‘महाबाहो ! तुमने धर्मके जाननेवाले प्राचीन ऋषियोंके मूँहसे नाना प्रकारको धार्मिक कथाएँ सुनी हैं, इसलिये अब मनमें शोक न करो; क्योंकि समन्वार मनुष्य प्रारम्भके विधानसे कुत्त नहीं मानते। परम ब्रह्मिन् राजा युधिष्ठिर इस समय अपने सम्पूर्ण भाइयों, मुहूर्तों और स्त्रियोंके साथ स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अब इन्हें विदा कर दो। ये जाकर अपने राग्यका काम सँभालें। इन लोगोंको यनमें रहते एक महीनेसे अधिक हो गया।’

व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर राजा धृतराष्ट्रने युधिष्ठिरको निकट बुलाकर कहा—‘अज्ञातरात्री ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने भाइयोंसहित मेरी बात सुनो; तुम्हारी बदीलत मेरा सारा शोक दूर हो गया। अब तुम राजधानीको लौट जाओ, विलम्ब न करो। तुम्हारी दोनों माताएँ मेरी ही तरह मूले पत्ते चबाकर रहा करती हैं। अब वे अधिक दिनोंतक जीवित नहीं रह सकती। भगवान् व्यासके तपोबल और तुम्हारे समागमसे मुझे अपने परलोकवासी दुर्घोचन आदि पुत्रोंके दर्शन हो गये, अतः मेरे जीवनका भी प्रयोजन पूरा हो गया। अब मैं कठोर तपस्या करूँगा, इसके लिये तुम मुझे अनुमति दे दो। आजसे पितरोंके पिण्डदान, सुप्यारका और इस कुत्तका भार भी तुम्हारे ही ऊपर है; इसलिये बेटा ! आज या कल तुम अवश्य चले जाओ, अधिक देर न लगाओ। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है; तुमने मेरे लिये बहुत कुछ किया है।’

राजा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिर बोले—‘चाचाजी ! आप धर्मके ज्ञाना हैं, मेरा परित्रयण न कोजिये; क्योंकि मैं सर्वथा निरपराध हूँ। मेरे सभी भाई और सेवक मत्त हो चले जायें; किन्तु मैं संघम और व्रतका पालन करता हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओंकी सेवा करूँगा। यह सुनकर गान्धारीने कहा—‘बेटा ! ऐसी बात न करो। मैं जो कहती हूँ, उसे सुनो, तुमने जितना किया है, वही बहुत है। तुम्हारे द्वारा हमलोगोंका स्वागत-सत्कार पत्नीभक्ति हो चुका है। इस समय महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं, वही करो, क्योंकि पिताका पचन मानना तुम्हारा कर्तव्य है।’

गान्धारीके इस प्रकार आदेश देनेपर राजा युधिष्ठिरने अपने आँसुपूरे नेत्रोंको पोंछकर रोनी हुई कुन्तीसे कहा—

राजा और यशस्विनी गान्धारी देवी भी मुझे घर लौट
 ले जाना देती हैं; किंतु मेरा मन आपमें लगा हुआ है।
 का नाम भी चुनकर मुझे बड़ा दुःख होता है; फिर कैसे
 जानूँगा? मैं आपकी तपस्यामें विघ्न डालना नहीं चाहता;
 किंतु तपसे बढ़कर कुछ नहीं है। तपस्यासे परब्रह्म पर-
 मत्माकी भी प्राप्ति हो जाती है। अब मेरा चित्त पहलेकी
 तरह राजकाजमें नहीं लगता। हर तरहसे तपस्या करनेकी
 ही की चाहता है। यह चारी पृथ्वी मेरे लिये सूती हो गयी
 है; अतः केवल धर्मका पालन करनेके लिये मैं यहाँ रहना
 चाहता हूँ। हम सब लोगोंकी अपनी कल्याणकी वृष्टिसे
 अनुगृहीत कीजिये।'



यह चुनकर महदेवकी आज्ञामें आनू चमड़ जाये।
 उसने राजा युधिष्ठिरसे कहा—'भैया! मुझमें नाताजोकी
 छोड़कर जानिका चाहत नहीं है। आप शीघ्र ही लौट जाइये।
 मैं इसके साथ रहकर तपस्या करूँगा और इस शरीरको मुझ
 बालूंगा। मेरा हृदय महाराज तथा इन दोनों नाताजोकी
 सेवानें ही संलग्न रहना चाहता है।' यह चुनकर कुन्तीने
 महदेवकी छातीसे लगा लिया और कहा—'बेटा! ऐसा न
 कहो; मेरी बात मानकर घरको लौट जाओ। तुमलोगोंकी
 रहनेसे मेरी तपस्यामें विघ्न पड़ेगा; पुन्हाारी नमनतामें बंधकर
 मैं उसन तपस्यामें गिर जाऊँगी; इसलिये बेटा! जले
 जाओ; अब हमलोगोंकी आयु थोड़ी ही रह गयी है।'

इस प्रकार कुन्तीने तरह-तरहकी बातें कहकर उनके
 मनको धीरे-धीरे संभ्रामा। फिर माता तथा महाराज धृतराष्ट्रकी
 आज्ञा लेकर पाण्डवोंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और
 इस प्रकार कहा—'राजन्! आपके आशीर्वादेसे हमलोग
 दुर्गम-हृदयके राजधानीकी लौट जानेके लिये तैयार हैं।'
 धर्मराजके ऐसा कहनेपर राजा धृतराष्ट्रने उन्हें आशीर्वाद
 देकर जानेकी आज्ञा दी। फिर महाकली भीमसेनको धर्म
 संभ्रामा। भीमने भी उनकी बातोंको हृदयसे स्वीकार किया।
 तत्पश्चात् धृतराष्ट्रने अर्जुन और नकुल-सहदेवको छातीसे

लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद
 सब गान्धारीके चरणोंमें पड़े और उनकी भी आज्ञा ले
 उन्होंने कुन्तीको प्रणाम किया। माता कुन्तीने सब
 हृदयसे लगाकर उनका मस्तक संभ्रामा। तदनन्तर उन
 सबकी परिश्रमा की। द्रौपदी आदि-स्त्रियों भी
 स्वशूरको न्यायपूर्वक प्रणाम किया। फिर दोनों सा
 उन्हें गलेसे लगाकर आशीर्वाद दे जानेकी आज्ञा दी औ
 उनके कर्तव्यका उपदेश भी दिया। तत्पश्चात् वे
 पतियोंके साथ चली गयीं। थोड़ी ही देरमें सा
 'रथ जोतो, रथ जोतो' की पुकार मचायी। इसके
 धरकी स्त्रियों, भाइयों और सैनिकोंके साथ राजा
 हस्तिनापुर नगरको लौट आये।

नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिकी मृत्युका हाल जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक उन तीनोंके अन्त्येष्टि-कर्म

वैशम्पायनजी कहते हैं—जन्मेजय! पाण्डवोंको
 तपोवनसे लौटकर आये जद दो वर्ष व्यतीत हो गये तो एक
 दिन वेवर्षि नारद राजा युधिष्ठिरके पास आये। युधिष्ठिरने
 उनकी विधिपूर्वक पूजा की और जद वे आत्मनपर बैठकर थोड़ी
 देर विधान कर चुके तो उन्होंने कहा—'भगवन्! इधर

बहुत दिनोंसे आपके देशों नहीं हुए थे; कु
 इस समय आप किन-किन देशोंमें भ्रमण क
 हैं? बतलाइये, मैं आपकी क्या सेवा कर
 लोगोंकी परम गति है।'
 नारदजीने कहा—'राजन्! तुम्ह

इधर बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ है। इस समय मैं तपोवनसे आ रहा हूँ। रास्तेमें भगवती गङ्गा तथा अनेकों तीर्थोंका भी दर्शन करता आया हूँ।

पृथिविष्ठिर बोले—भगवन्! गङ्गाके किनारे रहनेवाले मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र इस समय बड़ी कठोर तपस्यामें लगे हुए हैं; क्या आपने भी उन्हीं देखा है? ये कुशलपूर्वक हैं न? गांधारी, कुन्ती, सञ्जय तथा मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र इस समय कैसे रहते हैं? ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बतानेकी कृपा कीजिये।

नारदजीने कहा—महाराज! मैंने उस तपोवनमें जो कुछ देखा और सुना है, वह सारा यत्नान्तर ठीक-ठीक बतला रहा हूँ। तुम स्मिर्घसित होकर सुनो—जब तुमलोग वनसे लौट आये तो तुम्हारे पिताजी गांधारी और यष्ट्र कुन्तीके साथ गङ्गाद्वार (हरद्वार) को चले गये। सञ्जय और यज्ञ करानेवाले पुरोहित भी अग्निहोत्रकी सामग्री लेकर उनके साथ ही गये। यहाँ पहुँचकर तुम्हारे पिताने तीव्र तपस्या आरम्भ की। ये मूँहमे पत्थरका टुकड़ा रखकर वायुका आहार करते और मोन रहते थे। उस वनमें जितने ऋषि थे, वे सब लोग उनका विशिष्ट सम्मान करने लगे। उनके शरीरमें चमड़ेसे ढकी हुई हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया। इस प्रकार उन्होंने छः महीने व्यतीत किये। गांधारी केवल अन्न पीकर रहने लगीं। कुन्ती देवी एक महीनेतक उपवास करके एक दिन भोजन करती थीं और सञ्जय छठे समय अर्थात् दो दिन उपवास करके तीसरे दिन संध्याको आहार ग्रहण करते थे। यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण उनके द्वारा स्थापित अग्निमें विधिबद्ध हवन करते रहते थे। राजा धृतराष्ट्र कमी दिलायी देते और कमी बढ़यते हो जाते थे। अब उनका कोई निपट स्थान नहीं रह गया था। वे वनमें चारों ओर विचरते रहते थे। गांधारी और कुन्ती—ये दोनों वैविर्षी साथ-साथ रहकर धृतराष्ट्रके पीछे-पीछे फिरती थीं। सञ्जय भी उन्हींका अनुसरण करते थे। ऊँची-नीची भूमि आनेपर सञ्जय ही धृतराष्ट्रको निभाते थे और कुन्तीदेवी गांधारीके लिये नेत्र बनी हुई थीं।

एक दिनकी बात है, राजा धृतराष्ट्र गङ्गाके किनारोंमें घूम रहे थे। उन्होंने गङ्गाजीके जलमें प्रवेश करके डूबकी लगायी और वहसित पुनः वे आश्रमकी ओर चल दिये। इसी समय बड़े जोरकी हवा चली, जिससे उस वनमें भयंकर दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी। सारा जंगल सब ओरसे धाय-धाय करके जलने लगा, मृगोंके झुंड झुलसने लगे और बनेले सुअर भाग-भागकर जलाशयोंमें छिपने लगे। समस्त वन आगसे घिर गया और उन लोगोंके ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा; तो भी राजा धृतराष्ट्र उपवास करनेसे प्राण-भ्रंशित सीधे हो जानेके कारण भाग न सके। तुम्हारी दोनों माताएँ भी अत्यन्त दुःख हो गयी थीं, अतः वे भी भागनेमें असमर्थ थीं। उस समय आग की निरुद्ध आती देख राजा धृतराष्ट्रने

अपने सार्वभिते कहा—'सञ्जय! तुम किसी ऐसे स्वामिपर भाग जाओ, जहाँ यह दावाग्नि तुम्हें जला न सके। हमसौग तो अब यहाँ अपनेको अग्निमें होमकर परम गति प्राप्त करेंगे।' उनकी बात सुनकर सञ्जय धबरा उठे और बोले—'महाराज! इस लौकिक अग्निसे आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है (आपके शरीरका दाह-संस्कार तो आह्वनीय अग्निमें होना चाहिये); किन्तु इस समय इस दावागलसे छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं दिलायी देता। अब इसके बाद क्या करना चाहिये—यह बतानेकी कृपा करें।' सञ्जयके इस प्रकार पृच्छनेपर धृतराष्ट्रने फिर कहा—'सञ्जय! हमसौग स्वेच्छासे गृहस्थाश्रमका परित्याग करके चले जाये हैं; अन्न: हमारे लिये इस तरहकी मृत्यु अनिष्टकारक नहीं हो सकती। जल, अग्नि या वायुके संयोगसे अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियोंके लिये प्रशंसनीय माना गया है; इसलिये तुम अब यहाँ से शीघ्र चले जाओ, वितम्ब न करो।' यह कहकर राजा धृतराष्ट्रने अपने मनकी एकाग्र किया और गांधारी तथा कुन्तीके साथ वे पूर्वामिमुक्त होकर बंट गये। उन्हें उस अवस्थामें देख सञ्जयने उनको परिश्रमा की और कहा—'महाराज! अब अपनेको योग्यमूक्त कीजिये।' राजाने उनके कथनानुसार समाधि लगा ली। वे इन्द्रियोंकी रोककर काष्ठकी भाँति निरुच्छेद हो गये। इसके बाद देवी गांधारी, तुम्हारी माता कुन्ती तथा तुम्हारे पितृव्य राजा धृतराष्ट्र—ये तीनों ही दावाग्निमें जलकर भस्म हो गये; किन्तु सञ्जयके प्राण बच गये हैं। मैंने उन्हें गङ्गाके तटपर तपस्वियोंसे घिरे हुए देखा था। उन्होंने उन तपस्वियोंको



दुलाकर यह सारा समाचार निवेदन किया और स्वयं वहाँसे हिमालय पर्वतपर चले गये। इस प्रकार महामना धृतराष्ट्र और तुम्हारी दोनों माताओंकी मृत्यु हुई है। वनमें धूमते समय अकस्मात् उन तीनोंके मृतशरीर मेरी दृष्टिमें भी पड़े थे। तत्पश्चात् राजाको इस तरह मृत्यु होनेका वृत्तान्त सुनकर समस्त तपस्वी उस तपोवनमें एकत्रित हुए, किंतु किसीने उनके लिये शोक नहीं किया; क्योंकि उनके मनमें उन तीनोंकी सद्गतिके विषयमें तनिक भी संदेह नहीं था। युधिष्ठिर! वहाँ जानेपर मैंने राजा और उन दोनों देवियोंके दग्ध होनेका समाचार सुना है। इसके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीने स्वेच्छासे ही दावागिनमें अपने शरीरकी आहुति दी है।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! राजा धृतराष्ट्रके परलोक-गमनका यह वृत्तान्त सुनकर महात्मा पाण्डवोंको बड़ा शोक हुआ और उनके अन्तःपुरमें उस समय महान् हाहाकार मच गया। सब लोग फूट-फूटकर रोने लगे। थोड़ी देरमें जब रोनेकी आवाज शान्त हुई, तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने आँसू पोंछकर नारदजीसे इस प्रकार कहने लगे—ब्रह्मन्! हमलोगोंके जीते-जी कठोर तपस्यामें लगे हुए महात्मा धृतराष्ट्रकी वनमें यों अनाथकी-सी मृत्यु हुई, यह कितने दुःखकी बात है! मुझे यशस्विनी गान्धारीके लिये उतना शोक नहीं है; क्योंकि वे पातिव्रतका पालन करके अपने पतिके लोकमें गयी हैं। मैं तो उन माता कुन्तीको घाद करके शोक-समुद्रमें डूबा जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने पुत्रोंका समृद्धिशाली ऐश्वर्य त्यागकर वनमें रहना पसंद किया था। हाय! उस महान् वनमें मन्त्रोंसे पवित्र किये हुए आहवनीय आदि अग्नियोंके रहते हुए मेरे पिताका दाह लौकिक अग्निसे क्यों हुआ?’

नारदजीने कहा—राजन्! धृतराष्ट्रका दाह लौकिक अग्निसे नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि वायु पीकर रहनेवाले वे राजर्षि जब गङ्गातीरवर्ती तपोवनमें प्रवेश करने लगे, तो उस समय उन्होंने याजकोंद्वारा इष्टि करानेके अनन्तर आहवनीय आदि अग्नियोंको वहीं त्याग दिया था। उनके याजकगण उन अग्नियोंको निर्जन वनमें रखकर इच्छानुसार अपने-अपने स्थानको चले गये। तपस्वियोंका कहना है कि उसी अग्निके बड़ जानेसे उस वनमें आग लगी थी और जैसा कि मैंने पहले बतलाया है, वे गङ्गाके तटपर अपने उसी अग्निके द्वारा दग्ध हुए हैं। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का अपने द्वारा स्थापित वैदिक अग्निसे ही दाह हुआ है और वे परम गतिको प्राप्त हुए हैं; इसलिये तुम उनके लिये शोक

न करो। गुरुजनोंकी सेवा करनेसे तुम्हारी भाताने भी बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब तुम अपने सभी भाइयोंके साथ जाकर उन तीनोंको जलाञ्जलि दो।

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और स्त्रियोंके साथ नगरसे बाहर निकलकर गङ्गातटपर गये। नगर और प्रान्तकी प्रजा भी राजभक्तिसे प्रेरित होकर एक वस्त्र धारण किये गङ्गाजीके समीप गयी; फिर सबने जलमें स्नान किया और धुयुत्सुको आगे करके उन्होंने महात्मा धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीदेवीको उनके पृथक्-पृथक् नाम और गोत्रका उच्चारण करके जलाञ्जलि दी। उसके बाद अशौच-निवृत्तिके अनुकूल कार्य करते हुए पाण्डवलोग नगरके बाहर ही ठहर गये। युधिष्ठिरने जहाँ राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए थे, उस स्थानपर भी विधि-विधानके जाननेवाले विश्वासपात्र मनुष्योंको भेजा और वहाँ—हरद्वारमें उनके श्राद्धकर्म करनेकी आज्ञा देकर उन्हें दानमें देने योग्य नाना प्रकारकी वस्तुएँ अर्पण कीं। शौच-सम्पादनके लिये दशाह आदि कर्म कर लेनेके पश्चात् पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने बारहवें दिन धृतराष्ट्र आदिके उद्देश्यसे विधिवत् श्राद्ध किये तथा ब्राह्मणोंको पर्याप्त दक्षिणाएँ दीं। धृतराष्ट्रके निमित्त उन्होंने सोना, चाँदी, गौ तथा बहुमूल्य शय्याएँ प्रदान कीं। इसी प्रकार गान्धारी और कुन्तीके पृथक्-पृथक् नाम लेकर उनके लिये भी उत्तम-उत्तम वस्तुएँ दान कीं। उस समय जो जिस वस्तुकी जितनी मात्रामें इच्छा करता, उसको वह वस्तु उतनी ही मात्रामें प्राप्त होती थी। राजा युधिष्ठिरने अपनी दोनों माताओंके उद्देश्यसे शय्या, भोजन, सवारी, मणि, रत्न, धन, वाहन और वस्त्र आदि वस्तुएँ दानमें दीं। इस प्रकार अनेकों बार श्राद्धका दान देकर युधिष्ठिरने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया। जो लोग हरद्वारमें भेजे गये थे, उन्होंने भी राजाको आज्ञाके अनुसार श्राद्ध किया और उन तीनोंकी हड्डियोंको एकत्रित करके भाँति-भाँतिके फूलों और चन्दनोंसे उनकी पूजा की और फिर उन्हें गङ्गामें प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हस्तिनापुरमें लौटकर उन्होंने यह सब समाचार राजाको कह सुनाया। देवर्षि नारदजी भी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरको धर्म बंधाकर अपने अभीष्ट स्थानको चले गये। इस प्रकार (युद्ध समाप्त होनेके बाद) राजा धृतराष्ट्रने अपने जाति-भाई, सम्बन्धी, मित्र, बन्धु और स्वजनोंके निमित्त दान देते हुए पंद्रह वर्ष हस्तिनापुर नगरमें व्यतीत किये थे और तीन वर्ष वनमें तपस्या करते हुए बिताये थे।

संक्षिप्त महाभारत

मौसलपर्व

पुष्पिष्ठिरका अपशकुन देखना तथा द्वारकामें उत्पात देछ श्रीकृष्णका
यादवोंको तीर्ययात्राके लिये आज्ञा देना


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवी सरस्वती ध्यातं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्पामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके निगमज्ञा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी सीता प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उत्तरे यक्षता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आगुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

धर्मरामायणजी कहते हैं—जनमेजय ! महाभारत युद्धके बाद जब छत्तीसवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ तो राजा पुष्पिष्ठिरको कई तरहके अपशकुन दिखायी देने लगे । भारी सूफान लिये प्रचण्ड आँधी चलने लगी । उससे बँकड़ और पत्थरोंकी वर्षा होने लगी । पत्थी बाहिनी और मण्डल बनाकर उड़ते दिखायी देने लगे । बड़ी-बड़ी नदियोंका जल बालूके भीतर छिप गया और समस्त विहारें कुहरेसे आच्छादित हो गयीं । आकाशसे पृथ्वीपर अंगार बरसानी हुई जल्कारें गिरने लगीं । सूर्यमण्डल धूमसे आच्छन्न हो गया । उदयके समय सूर्यमें तेज नहीं रहता था और उनके मण्डलमें कवच (विना सिरके छड़) दिखायी देने लगे । सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर भयानक घेरे बुट्टियोंपर होने लगे । उनके किनारोंमें साल, कासा और धूमर—ये तीन रण दिखायी देने लगे । ये तथा और भी बहुत-से भयमूचक उत्पात बीजने लगे । इसके थोड़े ही दिनों बाद पुष्पिष्ठिरको यह खबर मिली कि 'मूसलके कारण समस्त वृत्तिवंशियोंका संहार हो गया, केवल श्रीकृष्ण और बलमद्र ही उसके आपनने बचे हैं ।' यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयोंको बुलाया और पूछा—'अब हमें क्या करना चाहिये ?' अष्टादशके प्रभावसे वृत्तिवंशियोंका विनाश सुनकर पाण्डवोंको बड़ी बेचना हुई । ये दुःख-शोकमें डूब गये और हताश हो मन मारकर बैठ रहे ।

जनमेजयने पूछा—बिभर ! बुद्धि, अटक और भोज-भोगके बीरोंको जितने शान दे दिया था, जितने उनका संहार हो गया ? इस प्रसंगको आत विचारके साथ क्याकेनो टूपा करे ।

धर्मरामायणजीने कहा—राजन् ! एक समयको बात है—महर्षि विरवापित्र, बृहद और क्षीरघ्न मारुतजी द्वारकामें गये हुए थे । उन्हें देखकर ईश्वर के धारे हुए साधु आदि और साधुओंके स्त्रीके वेषमें विमूर्तिन बरके उनके पाग में पड़े और



धोने—मर्दियों । यह मारुतजीके बचपने की है । बचपुत्रके जिन बड़े साततल्प हैं । आनन्दन बचपने तपः करके

यह बताइये कि इस स्त्रीके गर्भसे क्या उत्पन्न होगा।' ऐसा कहकर चञ्चनाके द्वारा जब उन्होंने ऋषियोंका तिरस्कार किया तो वे मुनि क्रोधमें भरकर एक-दूसरेकी ओर देखते हुए बोले—'मूर्खों! यह श्रीकृष्णका पुत्र साम्ब, वृष्णि और अन्धकवंशी पुरुषोंका नाश करनेके लिये लोहेका एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम-जैसे दुराचारी, क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुलका संहार कर डालेंगे, केवल बलराम और श्रीकृष्णपर उनका बश नहीं चलेगा। बलरामजी तो स्वयं ही अपने शरीरका परित्याग करके समुद्रमें प्रवेश कर जायेंगे और महात्मा श्रीकृष्ण जब भूमिपर शयन करते होंगे, उस समय जरा नामक व्याघ्र उन्हें अपने बाणोंसे वीध डालेगा।' ऐसा कहकर वे मुनि भगवान् श्रीकृष्णसे जाकर मिले। यह समाचार सुनकर मधुसूदनने वृष्णवंशियोंको भी बता दिया। वे सबका अन्त जानते थे, इसलिये यादवोंसे यह कहकर कि 'ऋषियोंकी यह बात अवश्य सत्य होगी' नगरमें चले गये। यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर हैं, तथापि उन्होंने यदुवंशियोंके उस अन्तकालको पलटना न चाहा।

दूसरे दिन साम्बने मूसल उत्पन्न किया। यादवोंने इसकी सूचना राजा उग्रसेनको दे दी। यह सुनकर राजाके मनमें बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने उस मूसलको चूर्ण कराकर समुद्रमें फेंकवा दिया। इसके बाद उग्रसेन, श्रीकृष्ण, बलभद्र और बभ्रुकु आज्ञाके अनुसार नगरमें घोषणा करा दी गयी कि 'आजसे कोई भी नगरनिवासी वृष्णवंशी और अन्धकवंशियोंके यहाँ शराब और मदिरा न तैयार करे। जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरहका पेय तैयार करेगा, वह जीते-जी अपने भाई-बन्धुओंसहित सूलीपर चढ़ा दिया जायगा।' यह घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी मनुष्योंने राजाके भयसे मदिरा नहीं बनानेका निश्चय कर लिया।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! इस प्रकार वृष्णि और अन्धकवंशके लोग अपने ऊपर आये हुए संकटक निवारण करनेके लिये नाना प्रकारके उपाय कर रहे थे; तथापि काल प्रतिदिन उन सबके घरोंमें चक्कर लगाया करता था। उसका स्वरूप भयंकर और वेप विकट था। उसके

शरीरका रंग काला और पीला था। वह मूंड मूंडाये हुए पुरुषके रूपमें घूम-घूमकर वृष्णियोंके घरोंको देखता और कभी-कभी अदृश्य हो जाता था। उसे देखनेपर बड़े-बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों बाणोंकी वर्षा करते, किंतु उसे वीध नहीं पाते थे; क्योंकि वह सम्पूर्ण भूतोंसे अतीत था। अब, प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी। चूहे इतने बढ़ गये थे कि सड़कोंपर भी अधिक संख्यामें पाये जाते थे। वे रातमें सोये हुए मनुष्योंके केश और नख-कुतरकर खा जाया करते थे। यदुवंशियोंके घरोंमें सारिकाएँ निरन्तर चेंचें किया करती थीं। दिन हो या रात, एक क्षणके लिये भी उनकी आवाज बंद नहीं होती थी। सारस उल्लुओंकी और बकरे गीदड़ोंकीसी बोली बोलने लगे। कालकी प्रेरणासे वृष्णि और अन्धकोंके घरोंमें सफेद पंख और लाल पैरोंवाले कबूतर घूमने लगे। गौओंके पेटसे गदहे, खच्चरियोंसे हाथी, कुत्तियोंसे बिलाव और नेबलियोंके गर्भसे चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियोंको पाप करते लज्जा नहीं आती थी। वे देवता, पितरों, ब्राह्मणों और गुरुजनोंका भी अपमान करते थे। केवल बलराम और श्रीकृष्ण उनके तिरस्कारसे बचे थे। जब श्रीकृष्णके पाञ्चजन्य शङ्खकी ध्वनि होती, उस समय यदुवंशियोंके घरोंमें चारों ओरसे गर्धोंके रेंकनेकी भयंकर आवाज होती थी। इस प्रकार कालकी विपरीत गति देखकर और पक्षके तेरहवें दिन अमावास्याका संयोग जानकर भगवान् श्रीकृष्णने यदुवंशियोंसे कहा—'बीरो! महाभारत युद्धके समय जैसा योग लगा था, इन दिनों भी हमलोगोंका संहार करनेके लिये वही योग प्राप्त हुआ है।' यों कहकर श्रीकृष्ण कालकी अवस्थापर विचार करने लगे। सोचते-सोचते उनके मनमें यह बात आयी—'जान पड़ता है बन्धु-बान्धवोंके मारे जानेपर पुत्र-शोकसे संतप्त गान्धारीने आर्तभावसे यदुवंशियोंके लिये जो शाप दिया था, उसके पूर्ण होनेका यह समय—छत्तीसवाँ वर्ष आ गया।' यह सोचकर भगवान् श्रीकृष्णने गान्धारीका शाप सत्य करनेके उद्देश्यसे यदुवंशियोंको तीर्थयात्रा करनेकी आज्ञा दी। भगवान्की आज्ञासे राजपुरुषोंने सारे नगरमें यह घोषणा कर दी कि 'सब लोग समुद्रके तटपर प्रभास तीर्थमें चलनेकी तैयारी करें।'

यदुवंशियोंका संहार

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! द्वारकाको त्रिवर्षी रातको सपनेमें देखती थी कि साकेद बर्तौवासी एक काले रंगकी स्त्री हँसती हुई आयी है और उनका सौभाग्य-चिह्न सूटती हुई सारे नगरमें बीड़ लगा रही है। पुरव्योंको ऐसा स्वप्न दिखायी देता था कि भयंकर गूध आकर वृष्टि और अग्निक बंधाके मनुष्योंको अग्निशालामें तथा निवास-गृहोंमें पकड़-पकड़ कर ला रहे हैं। अत्यन्त भयानक राक्षस उनके आभूषण, छत्र, ध्वजा और कवच घृत्कार भागते देखे जाते थे। तबनन्तर वृष्टि और अग्निक महारथियोंने त्रिवर्षी-सहित तीर्थयात्रा करनेका विचार किया। फिर अत्यन्त तेजस्वी सैनिकोंका समुदाय रथ, घोड़े और ह्रायियोंपर सवार हो नगरसे बाहर निकला। इसके बाद समस्त यादव त्रिवर्षीसहित प्रभासक्षेत्रमें पहुँचकर अपने-अपने अनुकूल धरोंमें उतर गये। योगवेत्ता उद्वयजीने जब यह सुना कि यदुवंशी वीर प्रभासक्षेत्रमें समुद्रके तीरपर निवास करते हैं तो वे उनसे मिलनेके लिये वहाँ आये और उन सबसे विवाह संकर चले गये। जाते समय भगवान् धीरुष्णने उन महात्मारो ह्राय जोड़कर प्रणाम किया। भगवान्को यदुवंशियोंके विनाशकी बात मालूम थी, इसीलिये उन्हीं जाते हुए उद्वय-जीकी वहाँ रोकना उचित न समझा।



कर दिया। इसके बाद वे अग्य बोरोंकी भी मौजके पार उतारले गये। यह देत भगवान् धीरुष्ण उन्हीं रोकनेके लिये दौड़े। इतनेमें बातकी प्रेरणासे भोज और अग्न्यबंधने धीरुष्णने एकमन होकर सात्यकिको चारों ओरसे घेर लिया। उन्हीं क्षणमें प्रखर सात्यकिके अरर धारा करते देत रत्न-मोहन्यत्र प्रदुम्न क्षीपमें भर गये और सात्यकिको ब्रह्मर्षिके लिये वे बंधमें बुरकर भोजबंधी धीरुष्णने मोहा भंने लगे। उधर सात्यकि अग्न्यबंधीसहित ताप चिद्र गये। अन्तरी भुजाओंके बन्ने लोभिन होनेवाले वे क्षीनों बंधे अग्न्य और परित्यक्तसे ताप बिसर्षियोंका मुकाबला कर रहे थे; किन्तु उनकी संख्या अतिर होनेके कारण उन्हीं बरामन न कर सके और अन्तमें धीरुष्णनेके देखते-देखते क्षीनों ही अग्न्यके हाथसे मारे गये। अन्ते युध और सात्यकिको ब्रामन देत देत भगवान् धीरुष्णने क्षीपमें आकर एक सुदृष्टी दूरका देत देत देत लोहेका दृग्मन बन गयी। फिर लो क्षी-क्षी सात्यके पड़े, उन ताकने वे उन्हीं लक्ष्मने लोभने बन उतारने लगे। उत समय बातने प्रेरित होकर अग्न्य, भोज, त्रिदि और वृष्टिबंधने वीर उन हाथमें एक इन्हीं

इसके बाद यादवोंकी गोष्ठोंमें बैठे हुए सात्यकिने मरके आवेशमें आकर कृतवर्माका उपहास और अनादर करते हुए कहा—“हादिष्य ! अपनेकी सत्रिय माननेवाला कौन ऐसा वीर होगा, जो रातमें सुदँकी-सी दशामें सोये हुए मनुष्योंकी तेरो तरह हत्या करेगा ? तूने जो अग्न्याप किया है, उसे यदुवंशी कभी नहीं क्षमा कर सकेते !” सात्यकिने ऐसा कहने-पर प्रद्युम्नने भी कृतवर्माका अपमान करते हुए उनकी बातका अनुमोदन किया। यह सुनकर कृतवर्माको बड़ा क्रोध हुआ और उसने शार्वा ह्राय उठाकर सात्यकिका तिरस्कार करते हुए कहा—“अरे ! भूरिधवाकी यहि बट गयी थी और वे मरणान्त उपवासका निरचय करके यदु-भूमिमें बैठ गये थे; उन अवस्थामें तूने वीर कहलाकर भी उनकी नासनातपुन हत्या कीसे की ?” उसकी बात सुनकर सात्यकिने क्षीपका ठिकाना न रहा। वे छोड़े होकर बोले—“मैं सात्यकी सपय साकार कहता हूँ कि आज इस मापीरो मारकर डीपडोके पाँचों पुत्रों, धृष्टद्युम्न और शिशुद्रोके पास पहुँचा दूंगा।” यों कहकर सात्यकि धीरुष्णनेके पासमें मरपडकर आये बंधे और तसवार ह्रायमें सेकर उन्हींने कृतवर्माका मस्तक धड़ने अग्य

यह बताइये कि इस स्त्रीके गर्भसे क्या उत्पन्न होगा।' ऐसा कहकर वञ्चनाके द्वारा जब उन्होंने ऋषियोंका तिरस्कार किया तो वे मुनि क्रोधमें भरकर एक-दूसरेकी ओर देखते हुए बोले—'भूर्खों! यह श्रीकृष्णका पुत्र साम्ब, वृष्णि और अन्धकवंशी पुरुषोंका नाश करनेके लिये लोहेका एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम-जैसे दुराचारी, क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुलका संहार कर डालेंगे, केवल बलराम और श्रीकृष्णपर उनका वश नहीं चलेगा। बलरामजी तो स्वयं ही अपने शरीरका परित्याग करके समुद्रमें प्रवेश कर जायेंगे और महात्मा श्रीकृष्ण जब भूमिपर शयन करते होंगे, उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणोंसे बंध डालेगा।' ऐसा कहकर वे मुनि भगवान् श्रीकृष्णसे जाकर मिले। यह समाचार सुनकर मधुसूदनने वृष्णवंशियोंको भी वता दिया। वे सबका अन्त जानते थे, इसलिये यादवोंसे यह कहकर कि 'ऋषियोंकी यह बात अवश्य सत्य होगी' नगरमें चले गये। यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर हैं, तथापि उन्होंने यदुवंशियोंके उस अन्तकालको पलटना न चाहा।

दूसरे दिन साम्बने मूसल उत्पन्न किया। यादवोंने इसकी सूचना राजा उग्रसेनको दे दी। यह सुनकर राजाके मनमें बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने उस मूसलको चूर्ण कराकर समुद्रमें फेंकवा दिया। इसके बाद उग्रसेन, श्रीकृष्ण, बलभद्र और बभ्रुकुी आज्ञाके अनुसार नगरमें घोषणा करा दी गयी कि 'आजसे कोई भी नगरनिवासी वृष्णवंशी और अन्धकवंशियोंके यहाँ शराव और मदिरा न तैयार करे। जो कोई मनुष्य फर्हीं छिपकर इस तरहका पेय तैयार करेगा, वह जीते-जी अपने भाई-बन्धुओंसहित सूलीपर चढ़ा दिया जायगा।' यह घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी मनुष्योंने राजाके भयसे मदिरा नहीं बनानेका निश्चय कर लिया।

वैशम्पायनजी कहते हैं—'राजन्! इस प्रकार वृष्णि और अन्धकवंशके लोग अपने ऊपर आये हुए संकटका निवारण करनेके लिये नाना प्रकारके उपाय कर रहे थे; तथापि काल प्रतिदिन उन सबके घरोंमें चक्कर लगाया करता था। उसका स्वरूप भयंकर और वेप विकट था। उसके

शरीरका रंग काला और पीला था। वह मूंड मूंडाये हुए पुरुषके रूपमें घूम-घूमकर वृष्णियोंके घरोंको देखता और कभी-कभी अदृश्य हो जाता था। उसे देखनेपर बड़े-बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों बाणोंकी वर्षा करते, किंतु उसे बंध नहीं पाते थे; क्योंकि वह सम्पूर्ण भूतोंसे अतीत था। अब, प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी। चूहे इतने बढ़ गये थे कि सड़कोंपर भी अधिक संख्यामें पाये जाते थे। वे रातमें सोये हुए मनुष्योंके केश और नख-कुतरकर खा जाया करते थे। यदुवंशियोंके घरोंमें सारिकाएँ निरन्तर चें-चें किया करती थीं। दिन हो या रात, एक क्षणके लिये भी उनकी आवाज बंद नहीं होती थी। सारस उल्लुओंकी और बकरे गौदड़ोंकीसी बोली बोलने लगे। कालकी प्रेरणासे वृष्णि और अन्धकोंके घरोंमें सफेद पंख और लाल परोंवाले कबूतर घूमने लगे। गौओंके पेटसे गदहे, खच्चरियोंसे हाथी, कुत्तियोंसे बिलाच और नेवलियोंके गर्भसे चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियोंको पाप करते लज्जा नहीं आती थी। वे देवता, पितरों, ब्राह्मणों और गुरुजनोंका भी अपमान करते थे। केवल बलराम और श्रीकृष्ण उनके तिरस्कारसे बचे थे। जब श्रीकृष्णके पाञ्चजन्य शङ्खकी ध्वनि होती, उस समय यदुवंशियोंके घरोंमें चारों ओरसे गधोंके रेंकनेकी भयंकर आवाज होती थी। इस प्रकार कालकी विपरीत गति देखकर और पक्षके तेरहवें दिन अमावास्याका संयोग जानकर भगवान् श्रीकृष्णने यदुवंशियोंसे कहा—'वीरो! महाभारत युद्धके समय जैसा योग लगा था, इन दिनों भी हमलोगोंका संहार करनेके लिये वही योग प्राप्त हुआ है।' यों कहकर श्रीकृष्ण कालकी अवस्थापर विचार करने लगे। सोचते-सोचते उनके मनमें यह बात आयी—'जान पड़ता है बन्धु-बान्धवोंके मारे जानेपर पुत्र-शोकसे संतप्त गान्धारीने आर्तभावसे यदुवंशियोंके लिये जो शाप दिया था, उसके पूर्ण होनेका यह समय—छत्तीसवाँ वर्ष आ गया।' यह सोचकर भगवान् श्रीकृष्णने गान्धारीका शाप सत्य करनेके उद्देश्यसे यदुवंशियोंको तीर्थयात्रा करनेकी आज्ञा दी। भगवान्की आज्ञासे राजपुरुषोंने सारे नगरमें यह घोषणा कर दी कि 'सब लोग समुद्रके तटपर प्रभास तीर्थमें चलनेकी तैयारी करें।'

यदुवंशियोंका संहार

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! द्वारकाकी स्त्रियाँ रातको सपनेमें देखती थीं कि सफेद दाँतोंवाली एक काले रंगकी स्त्री हँसती हुई आयी है और उनका सीमाग-चिह्न छूटती हुई सारे नगरमें दौड़ सपा रही है। पुत्रियोंको ऐसा स्वप्न दिखायी देता था कि भयंकर गुध्र आकर वृष्णि और अन्धक पंशके मनुष्योंको अग्निशालामें तथा निवास-गृहोंमें पकड़-पकड़ कर ला रहे हैं। अत्यन्त भयानक राक्षस उनके आभूषण, छत्र, ध्वजा और कवच चुराकर भागते देखे जाते थे। तदनन्तर वृष्णि और अन्धक महारथियोंनि स्त्रियों-सहित तीर्थयात्रा करनेका विचार किया। फिर अत्यन्त तेजस्वी सैनिकोंका समुदाय रथ, घोड़े और हाथियोंपर सवार हो नगरसे बाहर निकला। इसके बाद समस्त यादव स्त्रियोंसहित प्रभासक्षेत्रमें पहुँचकर अपने-अपने अनुकूल घरोंमें ठहर गये। योगवैता उद्वेगजीने जब यह सुना कि यदुवंशी धीर प्रभासक्षेत्रमें समूहके तीरपर निवास करते हैं तो वे उनसे मिलनेके लिये वहाँ आये और उन सबसे विदा लेकर चले गये। जाते समय भगवान् धीहृष्णने उन महात्माको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान्को यदुवंशियोंके विनाशकी बात भग्लूम धी, इसीलिये उन्हीं जाते हुए उद्वेग-जीको वहाँ रोकना उचित न समझा।

इसके बाद यादवोंकी गोपटीमें बैठे हुए सात्यकिने मदके आवेशमें आकर कृतवर्माका उपहास और अनादर करते हुए कहा—‘हादिष्य ! अपनेको क्षत्रिय माननेवाला कौन ऐसा धीर होगा, जो रातमें मुँदकी-सी दासमें सोये हुए मनुष्योंकी तेरी तरह हत्या करेगा ? तूने जो अन्याय किया है, उसे यदुवंशी कभी नहीं क्षमा कर सकते।’ सात्यकिके ऐसा कहने-पर प्रद्युम्नने भी कृतवर्माका अपमान करते हुए उनकी बातका अनुमोदन किया। यह सुनकर कृतवर्माको बड़ा क्रोध हुआ और उसने बायाँ हाथ उठाकर सात्यकिका तिरस्कार करते हुए कहा—‘अरे ! भूरिधवाकी बहू कट गयी थी और वे मरणान्त उपवासका निरचय करके युद्ध-भूमिमें बैठ गये थे; उस अवस्थामें तूने धीर बहूलाकर भी उनकी नृसंसतापूर्ण हत्या कींते की ?’ उसकी बात सुनकर सात्यकिके क्रोधका ठिकाना न रहा। वे सन्न होकर बोले—‘मैं सत्यकी शपथ लाकर कहता हूँ कि आज इस पापीको मारकर द्रौपदीके पाँचों पुत्रों, प्रद्युम्न और शिशुपदीके पास पहुँचा दूँगा।’ धीं कहकर सात्यकि धीहृष्णके पासते अग्रदर आगे बढ़े और तलवार हाथमें लेकर उन्हीं कृतवर्माका भरतक धड़ते अलग



कर दिया। इसके बाद वे अन्य धीरोंको भी मौतके घाट उतारने लगे। यह देख भगवान् धीहृष्ण उन्हे रोहनेके लिये दौड़े। इतनेमें कासकी प्रेरणाते भोज और अन्धकपंशके धीरोंने एकमत होकर सात्यकिको चारों ओरसे घेर लिया। उन्हे क्रोधमें भरकर सात्यकिके ऊपर धावा करते देख द्रिभ-णोनन्दन प्रद्युम्न क्रोधमें भर गये और सात्यकिको बचानेके लिये वे बीचमें बूढ़कर भोजवंशी धीरोंति लोहा सने लगे। उधर सात्यकि अन्धकवंशियोंके साथ मिड़ गये। अपनी मुजाओंके बलसे दोग्रित होनेवासे वे दोनों धीर बड़े उत्साह और परिश्रमके साथ विपत्तियोंका मुकाबला कर रहे थे; किन्तु उनकी संख्या अधिक होनेके कारण उन्हे परास्त न कर सके और अन्तमें धीहृष्णके देखते-देखते दोनों ही शत्रुओंके हाथसे मारे गये। अपने पुत्र और सात्यकिको मारा गया देख भगवान् धीहृष्णने क्रोधमें आकर एक मूट्टी परबा उताड़ ली। उनके हाथमें आते ही वह घास बरछके समान भयंकर सोहेका मूसल बन गयी। फिर तो जो-जो सामने पड़े, उन सबको वे उसी मूसलने मौतके घाट उतारने लगे। उस समय कासते प्रेरित होकर अन्धक, भोज, गिनि और वृष्णिपंशके धीर उस हंगामेमें एक दूसरेको

रते घराशायी करने लगे। उनमेंसे जो कोई भी घर एरका नामक घात लेता, उसकी हायमें वह गान दिखायी पड़ती थी। जनमेजय ! यह सब शापका प्रभाव था कि तिनका भी मूसलके रूपमें ही जाता था। जिस किसी वृणका प्रहार किया जाता, वह वस्तुका भी भेदन कर डालता था। उसको लेकर उसके और पिता पुत्रके प्राण ले रहे थे। मतवाले भी आपसमें ही लड़कर घराशायी होने लगे। कुकुर वधकवंशके योद्धा आगमें गिरनेवाले पतंगोंकी तरह

प्राण त्याग रहे थे, फिर भी कोई मोगी श्रीकृष्णके देखते-देखते साम्ब, चारुदेव, प्रद्युम्न, अर्जुन और गदकी मृत्यु हो गयी। फिर तो उनकी क्रीडानि नड़क उठी और शङ्ख, चक्र एवं गदा धारण करनेवाले उन प्रभुने बाकी बचे हुए समस्त वीरोंका संहार कर डाला। यह देख महतेजस्वी बभ्रु और दारुक उनके पास जाकर बोले— 'भगवन् ! अब तवका विनाश हो गया। इनमें अधिकांश आपके हाथों मारे गये हैं। अब बलदेवजीका पता लगाना चाहिये। चलिये, हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलरामजी गये हैं।'

बलरामजी और भगवान् श्रीकृष्णका परमधाम-गमन

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर दारुक, बभ्रु और भगवान् श्रीकृष्ण—ये तीनों ही बलरामजीके चरण-चिह्न देखते हुए वहाँसे चल दिये। थोड़ी दूर जानेपर उन्होंने अनन्त पराक्रमी बलभद्रजीको एक वृक्षके नीचे विराजमान देखा, जो एकान्तमें बैठकर कुछ सोच-विचार कर रहे थे। उनके पास पहुँचकर श्रीकृष्णने दारुकको आज्ञा दी कि 'तुम शीघ्र ही कुर्देशकी राजधानी हस्तिनापुरमें जाकर अर्जुनको यादवोंके इस महासंहारकी सूचना दो। ब्राह्मणोंके शापसे यदुवंशियोंकी मृत्युका समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आवें।' श्रीकृष्णके इस प्रकार आज्ञा देनेपर दारुक रयपर सवार हो कुर्देशको चला गया। उसके चले जानेके बाद श्रीकृष्णने बभ्रुको अपने पास लड़े देखकर कहा—'आप त्रिव्यंकी रक्षाके लिये शीघ्र ही द्वारकाको चले जाइये। कहीं ऐसा न हो कि डाकू धनके लालचमें पड़कर उनकी हत्या कर डालें।' बभ्रु अपने भाई-बन्धुओंके वधसे बहुत डुबी थे; भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे वे ज्यों ही द्वारकापुरीके लिए प्रस्थित हुए, त्यों ही ब्राह्मणोंके शापके प्रभावसे उत्पन्न हुआ मूसल एक व्याघ्रके लोहमय मुद्गरमें जुड़ा हुआ उनके ऊपर गिरा, जिसकी चोटसे सहसा उनकी मृत्यु हो गयी। बभ्रुको मरे देख अत्यन्त तेजस्वी श्रीकृष्णने अपने बड़े भाईसे कहा—'मैया बलरामजी ! आप यहाँ रहकर मेरी प्रतीक्षा करें; तबतक मैं त्रिव्यंकी कुटुम्बीजोंके संरक्षणमें सौंप आता हूँ।' यह कहकर श्रीकृष्ण द्वारकापुरीमें गये और अपने पिता बसुदेवजीसे बोले—'तत ! आप अर्जुनके आनेकी बात देखते हुए सम्पूर्ण त्रिव्यंकी रक्षा करें। इस समय बलरामजी वनके भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जाऊँगा। मैं यदुवंशियोंका विनाश अपनी आँखों देखा है, उन वीरोंसे सूनी हुई यह द्वारकापुरी अब मजसे नहीं देखी जाती।'



यह कहकर वे अपने पिताके चरणोंमें प्रणाम पुरंत वहाँसे चल दिये। इतनेमें ही उस नगरकी त्रिव्यं बालकोंके रोने-बिलखनेका महान् आर्तनाद सुनकर विलाप करती हुई युवतियोंके कृष्ण ऋन्दन सुनकर पुनः लौट आये और उन्हें सान्त्वना देते हुए बोले— नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगरमें आनेवाले संकटसे बचावेंगे।' यह कहकर वे चले गये। उन्होंने एकान्त वनमें बलरामजीका दर्शन किया योगयुक्त हो समाधि लगाये बैठे थे। श्रीकृष्ण उनके मुखसे सफेद रंगका एक बहुत बड़ा स



वतमें विचरते गये। धूमने-धूमने वे एक अणु कृषिपर बंड गये और कुछ सोचने लगे। पूर्वकाममें लाम्पारीदेवीकी जो शार दिया था, उसको याद करने उन्होने अपने अन्तर्गत होनेका उद्योग समय प्राण हुआ समय। धीरेधीरे सन्तुर्न अर्थिक तरबोता और अविनागो देखा वे; तो जो उगरी तोनों सोचोकी रसाके गिये परमप्राण पधारनेके उरुदने मन, चापी और इन्द्रियोंका संघष किया और ब्यापोग (सामाजिक) का अवसम्बन्ध करने के पुरबीपर संर गये। उनी समय एक जरा मामकागा व्याघ मुँगीरो मार में जायेकी इच्छासे उम स्यात्तर आया और घोसमें गिये होकर सोर हुए धीरेधीरे पेरमें बाण मारकर घाव कर दिया। उमका विस्त युगमें आलस्य था, इतलते धीरेधीरे की उमने म् ही समय था। बाण मारनेके बाद बर बर अन्तः शिर परबनेके तिये आगे बढ़ा तो घोसमें गिये बाद ब्रह्मराजे पीताम्बरधारी पुरन भगवान् धीरेधीरे उमके दुहिते वही। अब तो जरा मरनेको आशापी मानकर मन-ही-मन कृप शक्तिन हुआ और उमने भगवान्के सोमों चरण पवन गिये। महात्मा धीरेधीरे उम समय उमे आश्रयगत रिया और अरकी बलिने आश्रय एवं पुरबीको ध्यान करने हुए वे उमनेसोचमें (अपने परम धायरो) चने गये। अन्तर्गतमें कृषिपर इन्द्र, अग्निवीरुषार, रड, आश्रय, बसु, विदेदेव, वीर, गिह और अमराओलिन सव्य-सव्य सपारोंने आगे बढ़कर भगवान्का स्वागत किया। लाम्पारान् अन्तः लेखाके जगन्को उन्मत्त बानेबाके, अविनागी एवं लोकात्मके आधावे भगवान् मारणन अन्तः लेखाके युवों और आश्रयके प्रकामगत करने हुए मरने परम धाय—उन्मत्त बाने हो गये। उनके परम धायरोका धारा करने समय देखा, श्रुति, धारण, गणने, अज्ञान, गिह और लाम्पारानेके रसिक मायमे उनका मुक्त किया। देखाजोके अविनागर, अन्तः लेखाके श्रुतेदेवी श्रुताओमें युक्त, गणनेके समय तथा इन्के भी प्रेमका उतका इच्छा-सम्पत्ता किया।

समुद्रकी ओर चला गया। उसके हुआमें मलक थे और मुषकी प्रमा रक्त वर्णकी थी। समुद्रे स्वयं प्रकट होकर उन भगवान् अन्तःका स्वागत किया। साथ ही दिग्घ नागों और पवित्र सरिताओने भी उनका सत्कार किया। बकोदक, वासुकि, तक्षक, पृथुधवा, अरुण, बुध्नर, मिथी, गहू, कुमुद, पुण्डरीक, धृतराष्ट्र, ह्यार, चाप, शिशिपष्ठ, उपनेता, चनभन्द, अतिपण्ड, दुर्मुख और अम्बरीष आदि नाग भी उनको सेवामें उपस्थित थे। स्वयं राजा वरुणने भी वहाँ पदापंग किया था। इन सबने आगे बढ़कर अन्तः भगवान्का स्वागत, अभिनन्दन एवं अर्घ्य-साद्य आदिके द्वारा पूजन किया। भाई बलरामके परमप्राण पधारनेके पश्चात् सन्तुर्न गतियोंको जाननेवाले दिव्यदराँ भगवान् धीरेधीरे उम मुने


हारकामे आकर अर्जुनका यमुदेवसे संवाद तथा यमुदेवकीका निघण

वैशम्पायनजी कहते हैं—राहन् ! दारने हुए- बेसमें पंचेकर महाराजी पाण्डवोंने यह समाचार यह सुनाया कि समस्त यमुदेवी आरगमें सुमवीरो मारने मष्ट ही गये। कृष्ण, भीम, अर्जुन और बुध्न-बोने बीगीका विनाश मुनकर पाण्डवोंको बड़ा शोक हुआ। उनका हृदय आनन्दित ही उठा। धीरेधीरे गिय सभा अर्जुनकी तो म्पत्ता इन बानर विग्रहाम ही नहीं हुआ। वे मुनं अपने मत्ता बन्-

देवकीमे शिवनेके गिने कर दिये। दारनेके समय पूर्वकीके विनाशकातरा पूर्वकर अर्जुनने देखा कि हुपका अन्ते विघ्ना रसोने अन्तः धीरेधीरे हो गये। अन्तः धीरेधीरे घोस इतरा म्पत्ता अर्जुनको देवने ही लाम्पारानेके गने कनी। उमका अन्तः लेखा बर म्पत्ता। उमका हीन दानने ही अर्जुनकी अन्तः लेखा का अन्ते। अन्तः लेखाके अन्ते हीन हुई उम अन्तः लेखाके अन्ते हीन

नहीं गया। द्वारका नगरी और श्रीकृष्णकी पत्नियोंकी यह दुरवस्था देख अर्जुन फूट-फूटकर रोने लगे और आंसुरोंकी धारा बहाते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े। सत्राजित्की पुत्री सत्यमामा और रुक्मिणी आवि पटरानियाँ भी अर्जुनके निकट आ जमीनपर गिर पड़ीं और उन्हें घेरकर जोर-जोरसे रोने लगीं। तत्परचात् उन्होंने अर्जुनको उठाकर सोनेके सिंहासनपर बिठाया और चुपचाप उनके चारों ओर बैठ गयीं। उस समय पाण्डुनन्दन अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंकी प्रशंसा करके उनके विषयकी अनेकों बातें सुनायीं और समभा-बुझाकर उन दुःखिनी स्त्रियोंकी सान्त्वना दी। इसके बाद वे अपने मामा वसुदेवजीसे मिलनेके लिये उनके महलमें गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि महात्मा वसुदेवजी पुत्र-शोकसे संतप्त होकर पृथ्वीपर पड़े हुए हैं। मामाकी यह दशा देखकर आंसू बहाते हुए अर्जुनने उनके दोनों पैर पकड़ लिये। वसुदेवजीने अपनी दोनों भुजाओंसे अर्जुनको खींचकर छातीसे लगा लिया और अपने समस्त पुत्रों, भाइयों, पौत्रों, बौहिवों और मित्रोंकी याद कर-करके वे रोने-बिलखने लगे।

वसुदेवजी बोले—अर्जुन! जिन चीरोंने संफड़ों दंत्यों और राजाओंपर विजय पायी थी, उन्हें आज नहीं देख



जाता था तथा तुम भी जिनकी प्रशंसा के गीत गाया करते थे वे श्रीकृष्णके स्नेहमाजन प्रद्युम्न और सात्यकि ही इस समय वृष्णिवंशियोंके विनाशका प्रधान कारण हुए हैं। अथवा सात्यकि, कृतवर्मा, अक्रूर या प्रद्युम्नकी भी निन्दा क्यों करूँ? वास्तवमें ऋषियोंका शाप ही इस सर्वनाशका प्रधान कारण है। जिन जगदीश्वरने फेरी, कंस, चेदिराज शिशुपाल, निपादराज एकलव्य, कर्लिग, मागध, गान्धार, काशिराज तथा मरुभूमिके राजाओंकी भी यमलोकका अतिथि बनाया; जिन्होंने पूर्व, दक्षिण तथा पर्वतीय-प्रान्तके नरेशोंका संहार किया, उन्हीं मधुसूदनने बालकोंकी अनीतिके कारण प्राप्त हुए इस संकटकी उपेक्षा कर दी। तुम, देवाधि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्रीकृष्णको पापके सम्पर्कसे रहित सनातन परमेश्वर जानते हैं; वे ही परमात्मा अपने कुटुम्बके वधको चुपचाप देखते रहे और सदा इसकी ओरसे उदासीन बने रहे। जान पड़ता है, मेरे पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए जगदीश्वरने गान्धारी तथा ऋषियोंके वचनको अन्यथा करना नहीं चाहा। अर्जुन! तुम्हारा पौत्र परीक्षित अश्वत्थामाके हाथसे मारा जाकर भी श्रीकृष्णके प्रभावसे जीवित हो गया—यह तो तुम लोगोंकी आँखों देखी घटना है। इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखाने अपने कुटुम्बियोंकी रक्षा नहीं की। जब पुत्र, पौत्र, भाई और मित्र—सभी एक दूसरेके हाथसे मरकर धराप्रायी हो गये तो उन्हें उस अवस्थामें देखकर श्रीकृष्णने मेरे पास आकर कहा—‘पिताजी! आज इस फुलका संहार हो गया। अर्जुन द्वारकापुरीमें आनेवाले हैं; आनेपर उनसे वृष्णिवंशियोंके महानाशका वृत्तान्त सुनाइयेगा। अर्जुन महान् तेजस्वी हैं। वे यदुवंशियोंका निघन सुनकर शीघ्र ही यहाँ आयेंगे—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मैं हूँ, वे ही अर्जुन हैं। जो अर्जुन हैं, वही मैं हूँ। अर्जुन जो भी कहें, वही कीजियेगा। जिन स्त्रियोंका प्रसवकाल समीप हो, उनके बालकोंकी रक्षापर अर्जुन विशेषरूपसे ध्यान देंगे और वे ही आपका और्ध्ववैहिक संस्कार भी करेंगे। अर्जुनके यहाँसे जाते ही चहारदिवारी और अट्टालिकाओंसहित इस द्वारका नगरीको समुद्र डुबो देगा। मैं किसी पवित्र स्थानमें रहकर व्रत और नियमोंका पालन करता हुआ परम बुद्धिमान् बलरामजीके साथ कालकी प्रतीक्षा करूँगा।’ अचिन्त्य पराक्रमी श्रीकृष्ण ऐसा कहकर बालकोंके साथ मुझे यहाँ छोड़ स्वयं किसी अज्ञात दिशाको चले गये हैं। तबसे मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा श्रीकृष्ण और बलरामको तथा इस भयंकर कुटुम्ब-वधको याद करके शोकसे गलता जा रहा हूँ। मुझसे भोजन नहीं किया जाता। अब मैं न तो भोजन करूँगा और न इस जीवनको ही रखूँगा। पाण्डुनन्दन!

पाता हूँ; इतनेपर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे, वृष्णिवंशके प्रमुख चीरोंमें जिन बोकों ही अतिरथी माना

सौभाग्यकी बात है; जो तुम यहाँ आ गये। अब धीहृष्णने जो कुछ कहा है, यह सब करो। यह राज्य, ये स्त्रियाँ और ये रत्न—सब तुम्हारे अधीन हैं। अब मैं निरिचल होकर अपने प्राणोंका परिव्याग करूँगा।'

अपने मामाकी ये बातें सुनकर अर्जुन मन-ही-मन बहुत दुखी हुए। उनका मुँह मसिन हो गया। ये वसुदेवजीसे बोले—'मामाजी! वृष्णिवंशके श्रेष्ठपुरुष धीहृष्ण तथा अपने भाइयोंसे सुनी हुई यह पृथ्वी अब मुझसे नहीं देली जायगी। राजा युधिष्ठिर, आर्य भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा देवी द्रौपदीसे भी अब इस पृथ्वीपर नहीं रहा जायगा। हम सबोंका चित्त एक ही है। राजा युधिष्ठिरके भी परलोक-गमनका समय आ गया है। अब मैं वृष्णिवंशकी स्त्रियों, यातकों और बूढ़ोंको अपने साथ इन्द्रप्रस्थ ले जाऊँगा।' यह कहकर अर्जुनने दावकसे कहा—'मैं वृष्णिवंशी धीरोके मन्त्रियोंसे शीघ्र मिलना चाहता हूँ।' ऐसा कहकर उन्होंने यादव महा-रथियोंके लिये शोक करते हुए सुधर्म-सामामें प्रवेश किया और वहाँ वे एक सिंहासनपर विराजमान हुए। उस समय राज्यकी अङ्गभूत समस्त प्रकृतियाँ (मन्त्री आदि) तथा वेद-वेत्ता ब्राह्मण उन्हें सब ओरसे घेरकर बंठ गये। वे सभी दीन, मोहप्रस्त और अचेत-ने हो रहे थे। अर्जुनकी अवस्था तो और भी बयनीय हो रही थी। उन्होंने समासदेसि कहा—'मैं वृष्णि और अन्धक-वंशके लोगोंकी अपने साथ इन्द्रप्रस्थ से जाऊँगा; क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगरको डूबे देगा। अतः तुमलोग तरह-तरहके वाहन और रत्न लेकर तैयार हो जाओ। इन्द्रप्रस्थमें चलनेपर धीहृष्णके पौत्र वज्रको तुम्हारा राजा बना दिया जायगा। आजके सातवें दिन सूर्योदय होते ही हमें इस नगरसे बाहर हो जाना है। इसलिये सब लोग शीघ्र ही तैयारी करो।'

अर्जुनके इस प्रकार आता बनेपर समस्त मन्त्रियोंने अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये अत्यन्त उत्सुक होकर शीघ्र ही तैयारी आरम्भ कर दी। अर्जुनने मगवान् धीहृष्णके महलमें ही वह रात व्यतीत की। सवेरा होनेपर महातेजस्वी वसुदेवजीने अपने चित्तको समाहित करके योगके द्वारा उत्तम गति प्राप्त की। फिर तो उनके महलमें बड़ा भारी कुहराम मचा। रौतौ-चिल्लाती हुई नारियोंकी आवाज भयंकर जान पड़ती थी। सबके बाल खुसे हुए थे। आभूषण और माताएँ टूट-टूटकर बिखरी पड़ी थीं और वे छाती पीटती हुई कदम स्वरमें विलाप कर रही थीं। तदनन्तर, अर्जुनने एक अद्भुत विमान सजाकर उसपर वसुदेवजीके शवको सुनाया और मनुष्योंके कंधोंपर उठवाकर वे उसे नगरसे बाहर ले गये। उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आसपासके प्रान्तके लोग दुर-शोकमें

भरकर वसुदेवजीके शवके पीछे-पीछे गये। उनके अरपोंके आगे-आगे धरवमेघ-यत्नमें उपनोग किया हुआ छत्र तथा अग्निहोत्रकी प्रव्यसित अग्नि लिये दाजक ब्राह्मण बण रहे थे। और पीछे-पीछे वसुदेवजीकी पत्नियाँ दास और आभूषणोंसे सज-धजकर अपनी हजारों पुत्रवधुओंके साथ-साथ आ रही थीं। वसुदेवजीको अपने औपन-कालमें जो स्थान शिंघ्र निज था, वहाँ से जाकर उनका पित्रमेघ (बाह्-मंगरार) किया गया। जब चित्तामें आग मगा बी गयी तो उनरी चार पत्नियाँ—देवकी, मद्रा, रोहिणी और मरिता भी उगरर आ बेंटीं और उन्होंके साथ मस्य होकर पतिसौत्रकी प्राप्ति हुई। पाण्डुनन्दन अर्जुनने चन्दन और नाना प्रकारके गुणविपन पदार्थोंके द्वारा चारों त्रिपोंसहित वसुदेवजीके शवका बाह्-संस्कार किया। तत्पराबान् बय आरि वृष्णि और अन्धक-वंशके कुमाराँ तथा सिद्धीने महात्मा वसुदेवजीकी अगाध-जति थी। इतके बाद अर्जुन उस स्थानपर गये, जहाँ वृष्णिपौत्र संहार हुआ था। उन्हें भरकर धरतीपर बड़े देण अर्जुनको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने बह्मसायके ब्राह्मण परवाने उपग्रह हुए मूसलौंडारा मारे गये समस्त धाद्य धीरोके अर्धेष्टकमें किये। उन सबका विधिबन् प्रेतकमें करके अर्जुन सातवे दिन तयपर तयार हो दुरंत द्वारकासे चाल लिये। उनके साथ धोड़े, बैल, लखर और अंठीमें बने हुए रथोंपर बंजर शोकों बुझत वृष्णिवंशी धीरोकी स्त्रियाँ भी रोनी हुई बनी। अर्जुनकी आसतासे अन्धकों और वृष्णियोंके मोकर, दुःखवार, रथी तथा नगर और प्रान्तके लोग बड़े और बातर्गि मूत्र धोर विरोधा स्त्रियोंके चारों ओरसे घेरकर चरणे लगे। अन्धक और वृष्णिवंशके ब्राह्म, ब्राह्मण, शक्ति, बंस्य और शूद्र तथा धीहृष्णकी सोसह हजार स्त्रियाँ उनके पीछ बरलके आगे करके चल रही थीं। भोज, वृष्णि और अन्धक वंशकी माताँ और अरबाँ विधवा स्त्रियाँ उस समय अर्जुनके साथ आ रही थीं। वृष्णिवंशियोंका वह महान् समुदाय, जितो रथियोंमें धेष्ट अर्जुन अपने साथ से आ रहे थे, समुद्रके समान दिवायो मृगा था। उन सबके निकल जानेपर नगर और सारके निरागमन समुद्रने रत्नमें मरी हुई द्वारकाको अपने जममें डूबे दिया।

इस अद्भुत दृश्यको देखकर द्वारकावासी मनुष्य बर्षी तेजीसे चलने लगे। उस समय उनके मुखो बार-बार पड़ी निरुत्तता था—'देवकी सोसा अद्भुत है।' अर्जुन रथपीठ जाननी, पंचों और मन्त्रियोंके तयपर निवाग करने हुए वसु-वंशकी स्त्रियोंको ले आ रहे थे। बमने-बलने वे अत्यन्त सपुष्टिमासी पञ्चनर बेगामें आ पहुँचे और वह प्रान्त भी, वसु तथा धन-धान्यसे तल्पत्र था, अर्जुनने वही बह्मन बना। अनेके अर्जुनके संतरागमें इनने बड़े समुदायको जाने देकर बर्षी

रहनेवाले लुटेरोंके मनमें लोभ पैदा हुआ। वे सब आभीर जातिके मनुष्य थे। उन सबने एकत्रित होकर आपसमें इस प्रकार सलाह की—'भाइयो! यह देखो, धनुर्धर अर्जुन हम लोगोंको कुछ न समझकर वृद्ध-बालकोंके इस अनाथ समुदायको अकेला ही लिये जा रहा है। इसके ये सभी सैनिक उत्साहहीन दिखायी देते हैं। (अतः इनपर धावा करना चाहिये)। ऐसा निश्चय करके लूटका माल लेनेवाले वे लूट-धारी लुटेरे वृष्णिवंशियोंके समुदायपर हजारोंकी संख्यामें दूट पड़े और कालके जलट-फेरसे प्रोत्साहन पाकर अपने महान् सिंहानादसे सब लोगोंको उरते हुए उन्हें मार डालनेको उतारू हो गये। उन्हें पीछेकी ओरसे आक्रमण करते देख कुन्ती-नन्दन अर्जुन अपने पैदल सिपाहियोंके साथ सहसा पीछे लौट पड़े और हँसते हुए-से बोले—'पापियो! यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, अन्यथा मेरे बाणोंसे विदोर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोकमें पड़ जाओगे।'

वीरवर अर्जुनके ऐसा कहनेपर भी उन्होंने उनकी बातोंपर ध्यान नहीं दिया और वे भूर्त्त वारंवार उनके मना करनेपर भी उस समूहके ऊपर चढ़ आये। तब अर्जुनने अपने दिव्य धनुष गाण्डीवको चढ़ाना आरम्भ किया और पल्लपूर्वक बड़ी कठिनाईसे जैसे-तैसे उसको चढ़ा भी दिया; किंतु जब वे अपने अस्त्र-शस्त्रोंका स्मरण करने लगे तो उनकी बिल्कुल याद नहीं आयी। यह देखकर वे बड़े लज्जित हुए। हाथी-सवार और रथी योद्धा भी उन डाकुओंके हाथमें पड़े हुए अपने मनुष्योंको लौटा न सके। उस समुदायमें स्त्रियोंकी संख्या बहुत थी, इसलिये डाकू कई ओरसे उनपर धावा करने लगे और अर्जुन उनकी रक्षाका यथासाध्य प्रयत्न करते रहे। सब योद्धाओंके देखते-देखते वे लुटेरे कितनी ही सुन्दरी स्त्रियोंको घसीट-घसीटकर चारों ओर ले जाने लगे। उनकी यह दुर्दशा देख बहुतेरी स्त्रियाँ डाकुओंकी इच्छाके अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गयीं। तब अर्जुन अत्यन्त उद्विग्न हो उठे और हजारों वृष्णिवंशी योद्धाओंको साथ लेकर

गाण्डीव-धनुषसे छोड़े हुए बाणोंद्वारा उन डाकुओंके प्राण लेने लगे; परंतु एक ही क्षणमें उनके सारे बाण समाप्त हो गये। बाणोंकी कमीसे अर्जुनको बड़ा दुःख हुआ और वे शोक-संतप्त होकर धनुषकी नोकसे ही लुटेरोंका वध करने लगे। जनमेजय! उस समय पार्थके देखते-देखते ही वे श्लेच्छ डाकू वृष्णि और अन्धक वंशकी सुन्दरी स्त्रियोंको लूटकर चारों ओर भाग गये। अर्जुनने इसे दैवका विधान समझा और दुःख-शोकमें डूबकर वे लंबी-लंबी साँस लेने लगे। अस्त्रोंका ज्ञान लुप्त हो गया, भुजाओंमें अब पहले-जैसी शक्ति नहीं रही, धनुषपर काबू नहीं चलता था और अक्षय बाणोंका भी क्षय हो गया। इन सब बातोंको दैवकी तीला समझकर वे बहुत उदास हो गये और डाकुओंका पीछा न करके लौट आये। फिर अपहरणसे बची हुई स्त्रियों और लूट-खसोटसे बचे हुए रत्नोंको साथ लेकर कुक्षेत्रमें पहुँचे। इस प्रकार वृष्णिवंशियोंके शेष परिवारको ले आकर अर्जुनने उसको जहाँ-तहाँ बसा दिया। उन्होंने कृतवमतिके पुत्रको मार्त्तिकावत नगरका राज्य दे दिया और भोजराजके परिवारकी बची हुई स्त्रियोंको उसके साथ छोड़ दिया। पत्परचात् वृद्धों, बालकों तथा अन्य स्त्रियोंको साथ लेकर वे इन्द्रप्रस्थ आये और उन सबको वहाँका निवासी बना दिया। उन्होंने सात्यकिके प्रिय पुत्रको सरस्वतीके तटवर्ती (सारस्वत) देशका अधिकारी बनाया और वज्रको इन्द्रप्रस्थका राज्य दे दिया। वज्रके बहुत रोकनेपर भी अकूरजीकी स्त्रियाँ वनमें तपस्या करनेके लिये चली गयीं। रुक्मिणी, गान्धारी, शंढ्या, हैमवती तथा जाम्बवती देवी—ये अग्निमें प्रवेश कर गयीं। श्रीकृष्णकी प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियाँ तपस्याका निश्चय करके वनमें चली गयीं। जो-जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थके साथ आये थे, उन सबका यथायोग्य विभाग करके अर्जुनने उन्हें वज्रको सौंप दिया। इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके अर्जुन नेतृत्वे आँसू बहाते हुए महर्षि व्यासजीके आश्रमपर गये और वहाँ बैठे हुए महर्षिका उन्होंने दर्शन किया।

अर्जुन और व्यासजीकी बातचीत

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! महान् व्रतधारी तथा धर्मके ज्ञाता व्यासजीके पास जाकर 'मैं अर्जुन हूँ' ऐसा कहते हुए धनंजयने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उन्हें आये देख महामुनि व्यासजी प्रसन्न होकर बोले—'बेटा! तुम्हारा त्यागत है, आओ, बैठो।' अर्जुनका चित्त अशान्त था, वे वारंवार लंबी साँस लेते हुए अत्यन्त खिन्न हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर व्यासजीने पूछा—'पार्थ! तुम्हारे

ऊपर नख, बाल अथवा अधोवस्त्रकी कोर पड़ जानेसे अशुद्ध हुए घड़ेका जल तो नहीं पड़ गया है? अथवा तुमने रजस्वला स्त्रीसे समागम या ब्रह्महत्या तो नहीं की है? कहीं घृद्धमें परास्त तो नहीं हो गये? क्यों श्रीहीन-से दिखायी देते हो? यदि तुम्हारा वृत्तान्त मेरे सुनने योग्य हो तो शीघ्र बताओ।'

अर्जुनने कहा—भगवन्! जिनका सुन्दर विग्रह मेघके समान श्याम और नेत्र कमलदलके समान विशाल थे, वे



भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ परम धामकी चले गये । बाह्यभोगके शापसे मूसल-युद्धमें धृष्णिबीरोका विनारा हो गया । प्रभासलोत्रमें उनका रोमाञ्चकारी संग्राम हुआ था, जिसमें सभी बीरोका सफाया हो गया । महाबली भोज, धृष्णि और अग्रक-वंशी वीर आपसमें ही लड़कर मर गिटे हैं । समयका जलट-फेर तो देखिये, जिनको भुजाएँ परिधके समान थीं तथा जो गदा, परिघ और शक्तियोंकी घोट सह लेनेवाले थे, वे ही एरका नामक घातसे मारे गये ? उन अनन्त तेजस्वी धीरोंके विनाराका दुःख मुझसे किसी तरह सहा नहीं जाता । यदुर्विशियोंके संहारकी बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र सूख गया, पर्वत हिलने लगे, आकाश टूट पड़ा और अग्निमें शीतलता आ गयी । यह घटना विषयासके योग्य नहीं है, फिर भी सत्य है । इसके सिवा जो बूगरी घटना घटित हुई है, यह इससे भी अधिक कष्टदायक है । पञ्चनद देशके निवासी आभीरोंने मुझसे युद्ध टालकर मेरे देखते-देखते धृष्णिवंशकी हजारों स्त्रियोंका अपहरण कर लिया । यहाँ मेरे पास धनुष था, तो भी मैं उसका संधान न कर सका । मेरी भुजाओंमें पहले जो बल था, वह अब नहीं रहा । मेरा नाना प्रकारके अस्त्रोंका ज्ञान बिभ्रुत हो गया । मेरे सभी बाण क्षणभरमें नष्ट हो गये । जिनका स्वदय अप्रमेय है, जो शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले,

धनुर्भुज, पीताम्बरधारी, श्याममुखर तथा कमरदत्तके समान विरासत नेत्रोंवाले हैं, जो परम पुत्र्य गोविन्द अपनी अनन्त प्रभाका प्रसार करते हुए मेरे रथके आगे-आगे खड़े और शत्रुमेनाको मत्त किये डालते थे, वे अब मुझे नहीं दिसाये देते । उनका द्वांन न मितनेसे मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, मस्तिष्कमें धक्कर आता है, चित्त अत्यन्त उर्झित हो गया है, एक क्षणके लिये भी शान्ति नहीं मिलती । धार-पर जनार्दनके बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता । उनका अन्तर्धान सुनकर मुझे दिग्भ्रम हो गया है । मेरे भी बुट्टम्ब-का नाम तो ही हो चुका था, मेरा पराजय भी नष्ट हो गया । अब शून्यहृदय होकर झर-झर भटक रहा हूँ । अब आप क्षुपा करके यह उपदेश दें कि मेरा बन्धाण कंठे होगा ।

व्यासजीने कहा—दुःखभेद ! धृष्णि और अग्रक-वंशके महारथी बाह्यभोगके शापसे इधर होकर गये हुए हैं । तुम उनके लिये शोक न करो । उनकी ऐसी ही भविष्यता थी । यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण उनके इस संघटने टाल सकते थे, तथापि उन्होंने इसको उपेक्षा कर दी । श्रीकृष्ण तो तीनों सौकोंके समस्त धराधर प्राणियोंकी गतिवशो वसत सकते हैं; फिर धारवर्षार परदे हुए शापको अन्वया करना उनके लिये कौन बड़ी बात थी ? जो लेहक्या तुम्हारे रथके आगे चलते थे (सारथिका काम करते थे) वे वायुदेव कोई साधारण पुत्र्य नहीं, साक्षात् चक्र-नदाधारी पुरातन ऋषि माराधन थे । वे विरासत नेत्रोंवाले श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार उतारकर अब अपने परमधामको चले गये । भूहावाही ! तुमने भी भीममेघ और मनुक्त-सहदेवकी सहायतासे देवताओंका महान् बाध मिट्ट किया है । मेरी समझमें अब तुमलोगोंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है । तुम्हें सब प्रकारसे सफलता प्राप्त हो चुकी है । अब तुम्हारे परस्त्रीकामतया समय आया है और यही तुमलोगोंके लिये ध्येयकर है । जब उद्भवका समय आता है तो इसी प्रकार मनुष्योंके बौद्ध, तेज और ज्ञानका विनाश होता है और जब विपरीत समय उपस्थित होता है तो इन सबका नाश हो जाता है । बल ही इन सबकी जड़ है । संसारकी उत्पत्तिका बीज भी बल ही है । तुम्हारे अजगत्सर्वोका प्रयोजन भी पूरा हो चुका है; इसलिये वे जंगे मिले थे, वंशे हो चले गये । अब तुमलोगोंके उत्तम गति प्राप्त करनेका समय उपस्थित है । मुझे इसीमें तुम्हारा परम बन्धाण जान पड़ता है ।

यशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अग्निनेत्रयोः श्यासभोः इत यचनका तरय समनकर अर्जुन उनको आता से हस्तिनापुरकी चले गये और वहाँ धृष्णिधरमे मिमभर उन्होंने धृष्णि और अग्रकवंशका सारा समाघार बह गुनाया ।

संक्षिप्त महाभारत

महाप्रास्थानिकपर्व

द्रौपदीसहित पाण्डवोंका महाप्रस्थान

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययतुदीरयेत् ॥

अन्तर्धानी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके निरत्य-
स्रवा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महापि वेदव्यासको
नमस्कार करके आगुरी सम्पत्तियोंपर विश्व-प्राप्तिपूर्वक
अन्तःकरणको मुह्य करकेवाले महामारुत-ग्रन्थका पाठ करना
चाहिये ।

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! इस प्रकार वृष्णि और
अम्बकवंशके बीरोंने मूचक-बूढ़ होनेका समाचार सुनकर
भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम पद्मारेतेके परमात् पाण्डवों
का क्या किया ?

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! कुहराज युधिष्ठिरने
जब इस प्रकार वृष्णिवंशियोंके महान् संहारका समाचार
सुना तो महाप्रस्थानका निश्चय करके अर्जुनसे कहा—
‘महामते ! काल ही सम्पूर्ण अग्निप्योंको पका रहा है, विनाश-
की ओर ले जा रहा है । अब मैं कानके बन्धनको स्वीकार
करता हूँ, तुम भी इसके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट कर
सकते हो ।’ माईके इस प्रकार कहनेपर अर्जुनने भी कानकी
अतिव्यपत्ता बनवाकर उनके कपनका अनुमोदन किया ।
अर्जुनका विचार जानकर भीमसेन और नकुल-सहदेवने भी
उनकी बातका समर्थन किया । तत्पश्चात् युधिष्ठिरने
ययतुकी बुलाकर उसे सम्पूर्ण राजकी देख-भालका भार
सौंप दिया और अपने राज्याभिशासनपर परीक्षितका अमियेक
लिया । इसके बाद वे अत्यन्त दुःखी होकर नुमद्राजे बोले—
‘देवी ! यह कुम्हार पाँच परीक्षित् कौरवोंका राजा होगा
और ययुधिष्ठीयसे जो लोग बच गये हैं, उनका राजा
श्रीकृष्णजी बखरी बनाया गया है । परीक्षितका राज्य
हस्तिनापुरमें होगा और बखरी इन्द्रप्रस्थमें । तुम्हें राजा
बखरी में रजा करना चाहिये ।’ ऐसा कहकर माइयोंसहित

धर्मराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णका, अपने बूढ़े मामा वसुदेवजीका
तथा बलराम आदिका भी तर्पण किया और बड़ी सावधानीसे
सबके नाम ले-लेकर उनके लिये विधिबद्ध श्राद्ध किया । फिर
द्वैपायन व्यास, नारद, मार्कण्डेय, नारदाज और याज्ञवल्क्यको
पत्नपूर्वक बुलाकर उन्हें भगवत्प्रीत्यर्थ स्वादिष्ठ अन्नका भोजन
कराया तथा भगवान्का नाम-कीर्तन करते हुए उन्होंने उत्तम
ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके रत्न, वस्त्र, ग्राम, घोड़े और रथ
प्रदान किये । इसके बाद गुह्वर कृपावर्धकी पूजा करके
नगरनिवासियोंसहित परीक्षितको शिष्यभावसे उनको सेवामें
सौंप दिया । तदनन्तर समस्त प्रजाको बुलाकर राज्याधि-
पति युधिष्ठिरने उन्हें अपना महाप्रस्थानविषयक विचार बतलाया ।
उनकी बात सुनते ही नगर और प्रान्तके लोग उद्विग्न हो उठे
और बोले—‘महाराज ! आप ऐसा न करें (हमें छोड़कर
कहाँ न जायें) । परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने उन्हें
समन्ता-बुन्नाकर राजी किया और माइयोंसहित चले जानेका
निश्चित विचार कर लिया । फिर तो युधिष्ठिरने अपने
आभूषण उतारकर बल्कलवस्त्र धारण कर लिया । भीम,
अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी देवीने भी
ऐसा ही किया । सबने बल्कलवस्त्र पहन लिये । इसके बाद
ब्राह्मणोंसे विधिपूर्वक उत्सर्गकालीन इष्टि कराकर उन्होंने
अग्निप्योंका जलमें विनर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्राके
लिये प्रस्थित हो गये । पहले जूएमें परास्त होकर पाण्डवलोग
जिस प्रकार बचने गये थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदीसहित
उन्हें घरसे जाते देख नगरकी सम्पूर्ण स्त्रियाँ रोने लगीं ; किंतु
उन पाँचों माइयोंको इस यात्रासे बड़ी प्रसन्नता हुई थी ।
युधिष्ठिरका अमिप्राय जानकर और वृष्णिवंशियोंका संहार
देखकर समस्त पाण्डव, द्रौपदी और एक कुत्ता—ये सब साप-
साय चले । उन छहोंको साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर
जब हस्तिनापुरसे बाहर निकले तो नगरनिवासी प्रजा और
अन्तःपुरकी स्त्रियाँ उन्हें बहुत डरतक पहुँचाने गयीं ; किंतु
कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिरको लौटनेके लिये नहीं कह

सक। धीरे-धीरे समस्त पुरवासी और वृषाचार्य आदि मुमुक्षुको साथ लिये लौट आये। नागरन्या उम्भूत गङ्गामें प्रवेश कर गयी, चित्राङ्गदा मणिपुर नगरमें चली गयी तथा शेष माताएँ परीक्षितको घेरे हुए पीछे लौट आयीं।

तदनन्तर महात्मा पाण्डव और यशस्विनी द्रौपदी देवी उपवास करते हुए पूर्व दिशाको ओर चल दिये। वे शय-ने-सब भोगपुत्र, महात्मा तथा त्याग-धर्मका पावन करनेवाले थे। उन्होंने अनेकों बेसों, नदियों और समुद्रोंको यात्रा की। आगे-आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीमसेन, भीमसेनके पीछे अर्जुन और उनके भी पीछे धर्मराजः नकुल और सहदेव चलते थे। सिन्धुमें धौंठ द्रौपदीदेवी सबके पीछे चल रही थीं। इस प्रकार चलते हुए शूरवीर पाण्डव क्रमशः सातसागरके तटपर पहुँचे। अर्जुनने दिव्य रत्न समझकर सोमवसा अमोक्त अपने गाण्डोव धनुष तथा दोनों अक्षय तूणोंका परिचय नहीं किया था। वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने मार्ग रोककर खड़े हुए पुरवहपथारी साक्षात् अग्निदेवको सामने उपस्थित देला। सात प्रकारकी ज्वालाहृष जिह्वाओंसे सुसोमित होनेवाले उन अग्निदेवने पाण्डवोंसे इस प्रकार कहा—'महाबाहु युधिष्ठिर! भीमसेन! अर्जुन! नकुल और सहदेव! तुम्हें मालूम होना चाहिये कि मैं अग्नि हूँ। अब तुम मेरी बातोंपर ध्यान दो। मैंने नरस्वरूप अर्जुन और नारायण-स्वरूप भगवान् श्रीकृष्णके प्रभावसे ही पाण्डव बनको जन्माया था। तुम्हारे भाई अर्जुनको चाहिये कि वे इस उत्तम अस्त्र गाण्डोव धनुषको यहाँ छोड़कर बनमें जायें; क्योंकि अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह गाण्डोव धनुष सब प्रकारके धनुषोंमें धौंठ है। इसे पहले मैं अर्जुनके लिये ही बरणसे माँगकर ले आया था, अब पुनः इसे बरणको ही वापस कर देना चाहिये।'



यह सुनकर सब भाइयोंने अर्जुनको बहू धनुष त्याग देनेके लिये कहा। अर्जुनने उनकी बात मानकर धनुष और दोनों तरफत पानीमें फेंक दिये। इसके बाद अग्निदेव बर्णसे अन्तर्धान हो गये और पाण्डव धीरे शीतपर्णिकामुग होकर चल दिये। जाने-जाने वे सन्तानामुगके उत्तर तटपर होते हुए दक्षिण और परिचय दिशाकी ओर बढ़ने लगे। तटपरके वेचल परिचय दिशाकी ओर मुड़ गये और आगे बढ़कर उन्होंने गमुद्रमें डूबी हुई इन्द्राजुरीको देखा। फिर जेन-धर्ममें स्थित पाण्डवोंने बहामि धूमकर पुण्योकी परिचयमा दूरी करनेकी इच्छामें उत्तर दिशाकी ओर जाया की।

मार्गमें द्रौपदी तथा सहदेव आदि चार पाण्डवोंका गिरना

वेशम्पायनजी कहते हैं—'राजन्! नियमोंका पालन करनेवाले योगपुत्र पाण्डवोंने परिचयसे उत्तर दिशामें आकर महागिरि हिमालयका इशान किया। उसको साँघर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालुका समुद्र दिखायी पड़ा। तत्परचात् उन्होंने पर्वतोंमें धौंठ महागिरि सुमेरुका इशान किया। समस्त पाण्डव धकाप्रचित होकर यही तीरोंके साथ चल रहे थे। उनके पीछे आती हुई द्रौपदी सख्तान्तर पुण्योवर गिर पड़ी।

उसे नीचे पड़ी देल महाभयो भीमसेनको दर्शनाको पुत्रा—'भैया! राजकुमारों द्रौपदीने बची होई बन करी किना का; फिर बताइये, क्या कारण है कि बहू नीचे गिर पड़ी?' युधिष्ठिरने कहा—'नरस्येठ! इसके अर्थ अर्जुनके अति नियम पालन था, आज यह उम्भूतका बण बने रही है। यह बहूकर दर्शना युधिष्ठिर द्रौपदीकी ओर लेने किता ही अपने बिलको एकरा बनेके आगे बढ़ गये। योही'

वाद सहदेव भी गिरे। उन्हें गिरे देख भीमसेनने राजासे पूछा—'भैया ! यह माद्रीनन्दन सहदेव, जो सदा हमलोगोंकी सेवामें संलग्न रहता और अहंकारको कभी अपने पास फटकने नहीं देता था, आज क्यों धराशायी हुआ है ?'

युधिष्ठिरने कहा—राजकुमार सहदेव किसी को अपने-



जैसा विद्वान् नहीं समझता था, इसी दोषके कारण इसे आज गिरना पड़ा है।

द्रौपदी और सहदेवको गिरे देख बन्धुप्रेमी शूरवीर नकुल शोकसे व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देख भीमसेनने पुनः राजासे प्रदन किया—'भैया ! संसारमें जिसके रूपकी समानता करनेवाला कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्ममें

तुटि नहीं होने दी तथा जो सदा हमलोगोंकी आज्ञाका पालन करता था, वह हमारा प्रिय बन्धु नकुल क्यों गिर पड़ा ! भीमसेनके इस प्रकार पूछनेपर युधिष्ठिरने नकुलके सम्बन्धियों उत्तर दिया—'भीमसेन ! नकुल हमेशा यही समझता था कि रूपमें मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मनमें यह बात बँठी रहती थी कि मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान् हूँ इसीलिये इसको गिरना पड़ा है।' उन तीनोंको गिरे देख अर्जुनको बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुतापके मारे गिर पड़े। दुर्धर्ष वीर अर्जुनको गिरे और मरणासन्न हुए देख भीमसेन पुनः प्रश्न किया—'भैया ! महात्मा अर्जुन कभी परिहास नहीं भी झूठ बोले हों, ऐसा मुझे याद नहीं आता; फिर यह किस कर्मका फल है, जिससे उन्हें भी पृथ्वीपर गिरना पड़ा

युधिष्ठिर बोले—अर्जुनको अपनी शूरताका अभिमान था। इन्होंने कहा था कि 'मैं एक ही दिनमें शत्रुओंको मारकर डालूंगा' किंतु ऐसा किया नहीं। इसीसे आज इनका धराशायी होना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन्होंने सम्पूर्ण धनुर्धरोंका अपमान भी किया था (जिसका फल उन्हें भोगना पड़ रहा है), अतः अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको ऐसा नहीं करना चाहिये।

यों कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गये। इतनेमें ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरनेके साथ ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिरको पुकारकर कहा—'राजन् ! जरा मेरी ओर तू देखिये। मैं आपका प्रिय भीमसेन हूँ और यहाँ गिरा हुआ हूँ; यदि जानते हों तो बताइये, मेरे गिरनेका क्या कारण है ?'

युधिष्ठिरने कहा—भीम ! तुम बहुत खाते थे और दूसरोंको कुछ भी न समझकर अपने बलकी डींग हाँका करते थे; इसीसे तुम्हें भूमिपर गिरना पड़ा है।

यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिये। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा।

युधिष्ठिरका इन्द्र और धर्मके साथ वार्तालाप तथा सदेह स्वर्ग-गमन

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर आकाश और पृथ्वीको प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इन्द्र रथ लिये वहाँ आ पहुँचे और युधिष्ठिरसे बोले—'कुन्ती-नन्दन ! तुम इस रथपर सवार हो जाओ।' तब अपने गिरे हुए भाइयोंकी ओर दृष्टि डालकर धर्मराज युधिष्ठिर

शोकसे संतप्त हो उठे और इन्द्रसे कहने लगे—'देवेश्वर ! मेरे भाई मार्गमें गिरे पड़े हैं। वे भी मेरे साथ चलें, इसकी व्यवस्था कीजिये, अन्यथा मैं अपने भाइयोंके बिना स्वर्गमें भी नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी अत्यन्त सुकुमार है, उसे भी हमलोगोंके साथ चलनेकी अनुमति दीजिये।'

इन्द्रने कहा—भरतधेठ ! तुम्हारे मनो भाई तुमसे पहले ही स्वर्गमें पहुँच चुके हैं; उनके साथ द्रौपदी भी है। वहाँ चलनेपर वे सब तुम्हें मिलेंगे, अतः उनके लिये शोक न करो। वे मनुष्य-शरीरका परित्याग करके स्वर्गमें गये हैं; किंतु तुम इसी शरीरसे बर्हातक चल सकते हो।

युधिष्ठिर बोले—मगवन् ! यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है; अतः इसे भी मेरे साथ चलनेकी आज्ञा दीजिये।

इन्द्रने कहा—राजन् ! तुम्हें अमरता, मेरे समान ऐश्वर्य, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है; साथ ही तुम्हें स्वर्गाय सुख भी सुलभ हुए हैं। अतः इस कुत्तेको छोड़कर मेरे साथ चलो। इसमें कोई कठोरता नहीं है।

युधिष्ठिरने कहा—मगवन् ! आर्य पुरुषके द्वारा निम्न श्रेणीका काम होना कठिन है; मुझे ऐसी लक्ष्मीकी प्राप्ति कभी न हो, जिसके लिये भक्त पुरुषका त्याग करना पड़े।

इन्द्रने कहा—धर्मराज ! कुत्ता रखनेवालोंके लिये स्वर्ग-लोकमें स्थान नहीं है। उनके यत्न करने और कुँआ, बापलौ आदि बनवानेका जो पुण्य होता है उसे श्रेष्ठवशा नामके राक्षस हर लेते हैं; इसलिये सोच-विचारकर काम करो। इस कुत्तेको छोड़ दो—ऐसा करनेमें कोई निर्दयता नहीं है।

युधिष्ठिरने कहा—महेन्द्र ! भक्तका त्याग करनेसे जो पाप होता है, उसका कभी अन्त नहीं होता, संसारमें यह ब्रह्महत्याके समान माना गया है। अतः मैं अपने सुखके लिये कभी किसी तरह भी इस कुत्तेका त्याग नहीं कर सकता। जो बड़ा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसर कोई सहारा नहीं है—ऐसा कहते हुए आलंभावसे शरणागति आया हो, अपनी रक्षामें असमर्थ—जुर्मत हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुषको प्राण जानेपर भी मैं नहीं छोड़ सकता—यह मेरा सदाका व्रत है।

इन्द्रने कहा—वीरवर ! मनुष्य जो कुछ बान, स्वाध्याय अथवा हवन आदि पुण्यकर्म करता है, उसपर यदि कुत्तेकी दृष्टि भी पड़े जाय तो उसके फलको श्रेष्ठवशा नामके राक्षस हर ले जाते हैं; इसलिये इस कुत्तेका त्याग कर दो। इससे तुम्हें देवताकी प्राप्ति होगी। तुमने भाइयों तथा प्रिय पत्नी

द्रौपदीका परित्याग करके अपने पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप देवताकी प्राप्ति किया है, फिर इस कुत्तेकी वशों नहीं छोड़ देते ? सब कुछ छोड़कर अब कुत्तेके मोहमें बँसे पड़ गये ?

युधिष्ठिरने कहा—मगवन् ! संसारमें पर विरिचन बात है कि मरे हुए मनुष्योंके साथ न किसीका मेम होता है, न विरोध। द्रौपदी तथा अपने भाइयोंको जीवित करना मेरे वरानी बात नहीं है; अतः मर जानेपर उनका मैंने त्याग किया है, जीवितवाक्य्यामें नहीं। शरणागति आये हुएको भय देना, स्त्रीका वध करना, ब्राह्मणका घन सूटना और मित्रोंके साथ द्रोह करना—ये चार अधर्म एक ओर और मरना त्याग दूगरी ओर हो, तो मेरी समझमें यह अरेमा ही उन चारोंके बराबर है।

यशाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! (कुत्तेका शरीर धारण करके आये हुए) धर्मवरणी मगवान् धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करते हुए मधुर वचनोंमें बोले—‘राजेन्द्र ! तुम अपने तला-घार, बुद्धि और सम्पूर्ण प्राणिपणिके प्रति होनेवासी इस दयाके कारण अपने पिताका नाम उज्ज्वल कर रहे हो। बेटा ! एक बार पहले मैंने द्रौपदीमें भी तुम्हारी परीक्षा की थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी सानेके लिये जाकर मारे गये थे। उस समय तुमने कुत्तो और भाभी दोनों मानाओंमें तपानवादी इच्छा रखकर अपने तागे भाई भीम और अर्जुनको छोड़ केवल नभुसको जीवित करना चाहा था। इस समय भी, ‘यह कुत्ता मेरा भक्त है’ ऐसा सोचकर तुमने देवराज इन्द्रके रक्षका भी परित्याग कर दिया है। अतः स्वर्गलोकमें तुम्हारी समता करनेवाला कोई नहीं है। इसलिये तुम्हें अपने इसी शरीरसे शरणागति सोचनेकी प्राप्ति हुई है, तुम परम उत्तम विषय गतिको पा गये हो।’

यों बहुर धर्म, इन्द्र, मन्वन्व, अरिष्ठीनुमार, देवराज और देवर्षियोंने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको रक्षमें विद्या और अपने-अपने विमानोंपर आरुढ़ होकर वे स्वर्गलोकको गमन दिये। वे सबके-सब अपनी इच्छाके अनुसार विधानेकर्म, राजोपगम्य, पुष्पागम, पवित्र वाणी, बुद्धि एवं कर्मरत्न तथा सिद्धि थे। इन्द्रने रक्षमें भेड़े हुए राजा युधिष्ठिर अपने तेजसे पृथ्वी और आकाशको देखो-नयन करने हुए की

तेजीके साथ ऊपरकी ओर जाने लगे। उस समय सम्पूर्ण लोकोंका वृत्तान्त जाननेवाले, बोलनेमें कुशल तथा महान् तपस्वी नारदजीने देवमण्डलमें स्थित होकर उच्चस्वरसे कहा—‘जितने राजर्षि स्वर्गमें आये हैं, वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयशसे उन सबकी कीर्तिको आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं। अपने यश, तेज और सदाचाररूप सम्पत्तिसे तीनों लोकोंको आवृत करके अपने भौतिक शरीरसे स्वर्गलोकमें आनेका सौभाग्य पाण्डु-नन्दन युधिष्ठिरके सिवा और किसी राजाको भी प्राप्त हुआ हो—ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। युधिष्ठिर! वृश्नीपर रहते हुए तुमने आकाशमें नक्षत्र और ताराओंके रूपमें जितने तेज देखे है, वे ही ये देवताओंके हजारों लोक हैं; इनकी ओर देखो।’

नारदजीकी बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने देवताओं तथा अपने पक्षके राजाओंकी अनुमति लेकर कहा—

‘मेरे भाइयोंको भला या बुरा जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो, उसीको मैं भी पाना चाहता हूँ। उसके सिवा, दूसरे लोकमें जानेकी मेरी इच्छा नहीं है।’ उनके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्रने कोमल वाणीमें कहा—‘महाराज! तुम अपने शुभ कर्मोंद्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्गलोकमें निवास करो। मनुष्य-लोकके स्नेहपाशको क्यों अभीतक खींचते आते हो? तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जो दूसरे मनुष्यके लिये दुर्लभ है। तुम्हारे भाइयोंको ऐसा स्थान नहीं प्राप्त है। क्या अभीतक मनुष्यलोककी भावना तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ती? वह स्वर्गलोक है; इन स्वर्गवासी देवर्षियों और सिद्धोंकी ओर तो दृष्टि डालो।’

देवैन्द्रकी ऐसी बातें सुनकर युधिष्ठिरने फिर कहा—‘देवराज! अपने भाइयोंके बिना मुझे यहाँ रहनेका उत्साह नहीं होता। मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे भाई गये हैं और जहाँ सत्त्वगुणसम्पन्ना व्रीपदी देवी विराजमान हैं।’

महाप्रास्थानिकपर्व समाप्त

संक्षिप्त महाभारत

स्वर्गारोहणपर्व

स्वर्गमें नारद और युधिष्ठिरकी चातचीत तथा युधिष्ठिरको नरकाका दर्शन

नारायणं नमस्कृत्य नर षड् नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अन्तर्धामि नारायणस्वरूप भगवान् धीकृष्ण, उनके नित्यसत्ता नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी सीता प्रकट करने-वाली भगवती सरस्वती और उसके घबना महृषि वेदध्यामको नमस्कार करते आमुषी सभ्यतियों पर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये ।

जनमेजयने वृष्टा—मुने ! मेरे प्रियतामह पाण्डव जब स्वर्गमें पहुँच गये तो उन्हें और धृतराष्ट्रके पुत्रोंको किस-किस स्थानकी प्राप्ति हुई ?

धर्मराज युधिष्ठिरने स्वर्गमें जाकेके परवान देता कि कुर्षीघन स्वर्गीय शोभासे सम्पन्न हो बैवला और सत्ययुगमेंके साथ एक दिव्य सिंहासनपर बंठकर शून्यके समान देवीयमान हो रहा है । उसका ऐसा ऐश्वर्य देखकर युधिष्ठिर सहसा पीछेकी लौट पड़े और उच्च स्वरसे कहने लगे—ब्रह्माओ ! जिसके कारण हमने अपने समस्त सुहृदों और बन्धुओंका मुझमें संहर कर जाला तथा जिसको प्रेरणासे निरन्तर धर्मका आचरण करनेवाली हमारी पत्नी पाण्ड्यालराजकुमारी द्रौपदीको परी समामें मरुजनोंके सामने घमोटा गया, ऐसी कुर्षीघनके साथ मैं इस स्वर्गलोकमें नहीं रहना चाहता । यह सुनकर नारदजी हँस पड़े और बोले—‘महाबाहो ! स्वर्गमें आनेपर भाग्य-लोकका संहर-विरोध नहीं रहता, अतः तुम्हें महाराज कुर्षीघनके विषयमें ऐसी बात कदापि नहीं बहनी चाहिये । स्वर्गलोकमें जितने श्रेष्ठ राजा रहने हैं, वे और समस्त देवता भी यहाँ राजा कुर्षीघनका किशोर सम्मान करते हैं । यह सत्य है कि इन्होंने सब ही कुमलोगोचर बट्ट पहुँचाया है, तथापि मुझमें अपने शरीरकी आहुति देकर ये भीरुत्वको प्राप्त हुए हैं । अतः द्रौपदीको इनके द्वारा जो बन्धो प्राप्त हुआ है, उसे

भूल जाओ और इनके साथ स्याजुबंठ जाओ । पर स्वर्गलोक है, यहाँ आनेपर पहुँचने का संकल्प रहना ।’

नारदजीके ऐसा कहनेपर राजा युधिष्ठिरने वृष्टा—
‘बह्यन् ! जो महान् वनधारी, महापा, गण्डर्बज, विजय-विजयान और और सत्ययुगी के, उन मेरे भाइयोंको शोक-लोक प्राप्त हुए हैं ? उन्हें मैं देवता चाहता हूँ । तबपर दुःख रहनेवाले कुलीपुत्र महाभा बर्बर, दुःखदुःखको, भाग्यलोक तथा धृष्टदुःखने पुत्रोंको भी मुझे देवताके इच्छा है । इनके सिवा ओ-ओ राजा सत्ययुगमेंके अन्तर्गत मुझमें सम्पन्नता भारी गये हैं, वे इस सत्य बहो हैं ? उनका तो यहाँ शोक ही नहीं हो रहा है । राजा विराट, दुःख, दुःखेयु, पाण्ड्य-राजकुमार सितलो, शौरवीके लोको दुःख इका दुःखमें और अभिमन्युने भी मैं विवला चाहता हूँ ।’

अब युधिष्ठिरने देवताप्रति वृष्टा—दिवन । यहाँ युयामयु और उत्तमोजा—ये दोनों भाई क्यों नहीं दिवानी देने ? जिन-जिन महारथी राजाओं और राजकुमारोंके समराजिमें अपने शरीरोंको अमृतन की है, जो मेरे लिये दुःखमें भारी गये हैं, वे गिरके समान पराक्रमी और बहो हैं ? क्या उन महापुरुषोंके जो इस लोकपर अग्रिहार प्राप्त किया है ? यदि वे सब महारथी भी इस लोकमें आने हों, तब तो मैं उन महापुरुषोंके साथ यहाँ रहूँगा; परंतु यदि उनको यह सुख और अशुभ लोक नहीं प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने उन भाई-बन्धुओंके बिना यहाँ मुगने नहीं रहूँगा । दुःखके कारण जब मैं अपने दुःख सम्बन्धियोंके अन्तर्गतन दे रहा था, उन सत्य देवी भागा कुलीने बड़ा था—‘बंदा ! बन्धो भी अन्तर्गतन देना ।’ यहाँकी यह बात सुनकर जब मुझे आनन्द हुआ कि महापत्नी बन्धो मेरे ही भाई है, तबसे मुझे उनके लिये बड़ा दुःख होता है । यह लोकपर तो मैं और भी पराक्रम्य करना रहता हूँ कि महापत्नी बन्धोके दोनों बरलोकों काग्य कुलीने बरलोकोंके समान देवता भी मैं नहीं बनी उरता अन्तर्गतनी हो गया । यदि बन्धो हमारे साथ होते तो हमें इस की मुझमें बरलोक

नहीं कर सकते थे। वे सूर्यमन्दन कर्ण इस समय जहाँ-कहाँ भी हों, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अपने प्राणोंसे भी प्रिय भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा धर्मपरायणा द्रौपदी-को भी देखना चाहता हूँ। यहाँ रहनेकी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। यह मैं आपलोगोंसे सच्ची बात बता रहा हूँ। भला, भाइयोंसे अलग रहकर मुझे स्वर्गसे क्या लेना है। जहाँ मेरे भाई हैं, वहाँ मेरे लिये स्वर्ग है। मैं इस लोकको स्वर्ग नहीं मानता।'

देवताओंने कहा—राजन्! यदि उन्हीं लोगोंमें तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो, विलम्ब न करो। हमलोग देवराजकी आज्ञासे हर तरहसे तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं।

यों कहकर देवताओंने देवदूतको आज्ञा दी—'तुम युधिष्ठिरको इनके सुहृदोंका दर्शन कराओ।' तत्पश्चात् राजा युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साय-साय उस स्थानकी ओर चले, जहाँ पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन आदि थे। आगे-आगे देवदूत जा रहा था और पीछे-पीछे राजा युधिष्ठिर। दोनों एक ऐसे मार्गपर पहुँचे, जो बहुत ही खराब था; उसपर चलना कठिन हो रहा था। पापाचारी पुरुष ही उस रास्तेसे आते-जाते थे। वहाँ सब ओर घोर अन्धकार छा रहा था। चारों ओरसे बदबू आ रही थी, इधर-उधर सड़े हुए मुँदें दिखायी देते थे। जहाँ-तहाँ वाल और हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। लोहेकी



चोंचवाले कोए और गीघ भँडरा रहे थे। सुईके समान चुभते

हुए मुखोंवाले पर्वताकार प्रेत सब ओर घूम रहे थे। उन प्रेतोंमेंसे किसीके शरीरसे मेद और रुधिर बहते थे; किसीके वाहु, ऊर, पेट और हाथ-पैर कट गये थे। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर बहुत चिन्तित होकर उसी मार्गके बीचसे होकर निकले। उन्होंने देखा—वहाँ खौलते हुए पानीसे भरी हुई एक नदी बह रही है, जिसके पार जाना बहुत ही कठिन है। दूसरी ओर तीखे छुरोंके-से पत्तोंसे परिपूर्ण असिपत्रनामक वन है। कहीं गरम-गरम बालू बिछी है तो कहीं तपाये हुए लोहेकी बड़ी-बड़ी चट्टानें रक्खी गयी हैं। सब ओर लोहेके कलशोंमें तेल खौलाया जा रहा है। यत्र-तत्र पैंने कांटोंसे भरे हुए सेमलके वृक्ष हैं, जिनको हाथसे छूना भी कठिन है। इन सबके अलावे वहाँ पापियोंको जो बड़ी-बड़ी यातनाएँ दी जा रही थीं, उनपर भी युधिष्ठिरकी दृष्टि पड़ी। वहाँकी दुर्गन्धसे तंग आकर उन्होंने देवदूतसे पूछा—'भाई! ऐसे मार्गपर हम-लोगोंको अभी कितनी दूर और चलना है? तथा मेरे भ्राता कहाँ हैं?'

धर्मराजकी यह बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला—'बस, यहींतक आपको आना था। महाराज! देवताओंने मुझसे कहा है कि 'जब युधिष्ठिर थक जायें तो उन्हें वापस लौटा लाना।' अतः अब मैं आपको लौटा ले चलता हूँ। यदि आप थक गये हों तो मेरे साय आइये।' युधिष्ठिर उस बदबूसे विकल हो रहे थे, इसलिये घबराकर उन्होंने लौटनेका ही निश्चय किया। वे ज्यों ही उस स्थानसे लौटने लगे, त्यों ही उनके कानोंमें चारों ओरसे दुखी जीवोंकी यह दयनीय पुकार सुन पड़ी—'धर्मनन्दन! आप हमलोगों-पर कृपा करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइये; आपके आते ही परम पवित्र और सुगन्धित हवा चलने लगी है, इससे हमें बड़ा सुख मिला है। कुन्तीनन्दन! आज बहुत दिनोंके बाद आपका दर्शन पाकर हमलोगोंको बड़ा आनन्द मिल रहा है, अतः क्षणभर और ठहर जाइये। आपके रहनेसे यहाँकी यातना हमें कष्ट नहीं पहुँचाती।' इस प्रकार वहाँ कष्ट पानेवाले दुखी जीवोंके भाँति-भाँतिके दीन वचन सुनकर युधिष्ठिरको बड़ी दया आयी। उनके मुँहसे सहसा निकल पड़ा—'ओह! इन बेचारोंको बड़ा कष्ट है।' यों कहकर वे वहीं ठहर गये। फिर पूर्ववत् दुखी जीवोंका आर्तनाद सुनायी देने लगा; किंतु वे पहचान न सके कि ये किनके वचन हैं। जब किसी तरह उनका परिचय समझमें नहीं आया तो युधिष्ठिरने उन दुखी जीवोंको सम्बोधित करके पूछा—'आपलोग कौन हैं और यहाँ किस लिये रहते हैं?' उनके इस प्रकार पूछनेपर चारों ओरसे आवाज आने लगी—'मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं धृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और

हमलोग श्रीयवीके पुत्र हैं।' इस प्रकार अपने-अपने नाम बताकर सब लोग विलाप करने लगे। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर मनमें विचार करने लगे—'देवका यह कंसा विधान है? मेरे महात्मा भाई भीमसेन आदि, कर्ण, श्रीयवीके पुत्र तथा स्वयं श्रीयवीने भी ऐसा कौन-सा पाप किया था, जिसके कारण इन्हें इस दुर्गन्धपूर्ण मयानक स्थानमें रहना पड़ रहा है। ये सभी पुण्यात्मा थे। जहाँतक मैं जानता हूँ, इन्होंने कोई पाप नहीं किया था; फिर किस कर्मका यह फल है जो वे नरकमें पड़े हुए हैं? मेरे भाई सम्पूर्ण धर्मके भाता, गुरुवर, सत्यवादी तथा शास्त्रके अनुकूल चलनेवाले थे। इन्होंने क्षत्रिय-धर्ममें तत्पर रहकर बड़े-बड़े यज्ञ किये और बहुत-सी

वलिभार्यें दी हैं (तथापि इनकी ऐसी दुर्गन्धि क्यों हुई?)। मैं सोता हूँ या जागता? मुझे बेचन है या नहीं? वहाँ क्या मेरे विलका विकार मरवा घन तो नहीं है?'

इस तरह माना प्रचलते सोच-विचार करने हुए राजा युधिष्ठिरने देवदूतको कहा—'तुम जिनके पुत्र हो, उनके राजा सोच जाओ; मैं नहीं नहीं चर्चुंगा। अपने धार्मिकोंके कारण कहना—'युधिष्ठिर वहाँ रहेंगे।' मेरे रहनेके लिये मेरे भाई-बन्धुओंको मुक्त भित्तवा है।' युधिष्ठिरके ऐसा करनेपर देवदूत देवराज इन्द्रके पास जाता गया और युधिष्ठिरने भी कुछ कहा था करना चाहते थे, वह सब उनमें देवराजने निवेदन किया।

इन्द्र और धर्मका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा युधिष्ठिरका शरीर त्यागकर दिव्य लोकको जाना

वंशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय। धर्मराज युधिष्ठिरको उस स्थानपर लड़े हुए एक मूर्तमें भी नहीं बोलने पाया था कि इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता वहाँ आ पढ़ें। साक्षात् धर्म भी शरीर धारण करके राजासे मित्तनेके लिये आये। उन तेजस्वी देवताओंके आते ही बहुरीस साथ अग्यकार डूब हो गया। पापियोंके मातनाका वह क्षय नहीं दिखाना देता था। फिर शीतल, मन्द, सुगन्ध धाम चलने लगे। इन्द्रसहित मरुद्गण, यक्ष, अश्विनीकुमार, धाम्य, रात्र, आदित्य तथा अन्याय स्वर्गबासी देवता सिद्धों और महापियोंके साथ महातेजस्वी युधिष्ठिरके पास एकत्रित हुए। उस समय इन्द्रने युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए कहा—'महाबाहो! अबतक जो हुआ सो हुआ, अब इसमें अधिक बच्य उठानेकी आवश्यकता नहीं है। आओ, हमारे साथ चलो। तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अक्षयसौर्षिकी प्राप्ति भी हुई है। तुम्हें जो नरक देवता पड़ा है, इसके लिये शोध न करना। मनुष्य अपने जीवनमें शुभ और असुभ—दो प्रकारके कर्मोंकी राशि संचिन करता है। जो पहले शुभ कर्मोंका फल भोगता है, उसे पीछेने नरक भोगना पड़ता है और जो पहले ही नरकभवा बच्य भोग लेता है, वह पीछे

स्वर्गिय भोगका अनुभव करता है। जिनके पार-धर्म अदिक और पुण्य छोड़े होते हैं, वह पहले स्वर्गका भोग भोगता है (तथा जो पुण्य अदिक और पार धर्म किये रहता है, वह पहले नरक भोगकर पीछे स्वर्गमें आनन्द भोगता है)। इसी विषयके अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर पहले मैंने तुम्हें नरकका दर्शन कराया है। तुम्हें आश्चर्याकारके मारनेकी क्षम बटकर छलते शोभाचार्यको उनके पुत्रकी संपुष्पा विधाया विधान था, इसीलिये तुम्हें भी छलने ही नरक विधाया गया है। तुम्हारे पदके जिनके राजा मुझमें मारे गये हैं, वे सभी स्वर्ग-सोचमें पढ़े हुए हैं। मरानु धनुर्धर तथा अग्यधर्मियोंके घेष्ट कर्म भी, जिनके लिये मुझ साथ तुम्ही रहने हो, उनमें सिद्धिकी प्राप्ति हुए हैं। तुम्हारे इतने भाई तथा बान्धव-सन्तके अन्य राजा भी अपने-अपने लोच स्वानको प्राप्त हुए हैं। उन सबको बचकर देलो और अपनी धार्मिक विधाया त्याग कर मेरे साथ स्वर्गमें विहार करो। अपने लिये हुए पुण्यकर्म, सब और बान्धव सब कोलो। राजकुल-राजाय कोने हुए ताप्टिगाथी सोचोंको स्वीकार करो और अपनी तपस्याका महानु फल कोलो। युधिष्ठिर। तुम्हें इन्द्र हुए मरुर्ध सोच राजा हरिकण्ठके लोचनेकी अर्पण सब राजाके

लोकोंसे ऊपर हैं, उन्हींमें तुम विचरण करोगे। जहाँ राजर्षि मान्धाता, राजा भगीरथ और द्रुव्यन्तकुमार भरत गये हैं, उन्हीं लोकोंमें निवास करके तुम भी दिव्य सुखका उपभोग करोगे। महाराज ! वह देखो, त्रिभुवनको पवित्र करने-वाली देवनदी मन्दाकिनि सामने ही दिखायी दे रही हैं; उनके पवित्र जलमें/स्नान करके तुम दिव्य लोकोंमें जा सकोगे। वहाँ गोता लगाते ही तुम्हारा मानव-स्वभाव दूर हो जायगा, तुम्हारे मनके शोक-संताप, ग्लानि और वर आदि सभी दोष मिट जायेंगे।'

देवराजकी बात समाप्त होनेपर शरीर धारण करके आये हुए साक्षात् धर्मने कहा—'बेटा ! तुम्हारे धर्मविषयक अनुराग, सत्यभाषण, क्षमा और इन्द्रियसंयम आदि गुणोंके कारण मैं तुमपर ब्रह्म प्रसन्न हूँ। यह मेरे द्वारा तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा हुई है। किसी भी युक्तिसे कोई तुम्हें अपने स्वभावसे विचलित नहीं कर सकता। द्वैतवनमें अरणी-काष्ठका अपहरण करनेके पश्चात् जब यक्षके रूपमें मैंने तुमसे कई प्रश्न किये थे, वह तुम्हारी पहली परीक्षा थी; उसमें तुम भलीभाँति उत्तीर्ण हो गये। फिर द्रौपदीसहित तुम्हारे सब भाइयोंकी मृत्यु हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी, उसमें भी तुम्हें सफलता

मिली। यह तुम्हारी परीक्षाका तीसरा अवसर था; किंतु इस बारभी तुम अपने सुखकी परवा न करके भाइयोंके हितके लिये नरकमें रहना चाहते थे; अतः तुम हर तरहसे शुद्ध प्रमाणित हुए। तुममें पापका नाम भी नहीं है, इसलिये स्वर्गका सुख भोगो। तुम्हारे भाई नरकके योग्य नहीं हैं। तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है, वह देवराज इन्द्रद्वारा प्रकट की हुई माया थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सत्यवादी शूरवीर कर्ण तथा राजकुमारी द्रौपदी—इनमेंसे कोई भी नरकमें जाने योग्य नहीं है। भरतश्रेष्ठ ! आजो, अब मेरे साथ चलकर त्रिलोकगामिनी गङ्गाजीका दर्शन करो।'

जनमेजय ! धर्मके यों कहनेपर तुम्हारे पूर्वपितामह राजर्षि युधिष्ठिरने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओंके साथ जाकर मुनिजनवन्दित परम पावन देवनदी गङ्गाजीमें स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानवशरीरका त्याग करके दिव्य देह धारण कर लिया। उनके हृदयका शोक-संताप और वर-भाव जाता रहा। तत्पश्चात् वे देवताओंसे घिरकर महर्षियोंसे स्तुति सुनते हुए धर्मके साथ-साथ उस स्थानको गये, जहाँ उनके चारों भाई पाण्डव और धृतराष्ट्रके पुत्र क्रोध त्यागकर आनन्दपूर्वक निवास करते थे।

युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण आदिके दर्शन करना, भीष्म आदिका अपने मूलस्वरूपमें मिलना और महाभारतका उपसंहार तथा माहात्म्य

वंशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर देवताओं, ऋषियों और मरुद्गणोंके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ कुरुश्रेष्ठ भीमसेन आदि विराजमान थे (वह भगवान्का परम धाम था)। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण अपना ब्राह्मविग्रह धारण किये विराजमान हैं। उनका स्वरूप अपने पूर्व विग्रहके ही समान है; अतः पहलेकी देखी हुई समानताओंके कारण वे अनायास ही पहचाने जा रहे हैं। उनके श्रीविग्रहसे दिव्य ज्योति छिटक रही है। चक्र आदि भयंकर दिव्यास्त्र देवताओंके-से शरीर धारण करके

सेवामें उपस्थित हैं। अत्यन्त तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान्की आराधनामें लगे हुए हैं। देवपूजित भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी युधिष्ठिरको उपस्थित देख उनका यथावत् सम्मान किया। इसके बाद दूसरी ओर वृष्टि डालनेपर युधिष्ठिरने शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ कर्णको बारह भावित्योंके समान तेजोमय स्वरूप धारण किये विराजमान देखा। दूसरे स्थानमें भीमसेन दिखायी पड़े जो पहलेके ही समान शरीर धारण किये मूर्तिमान् वायु देवताके पास बंटे थे। उनके चारों ओर मरुद्गण दिखायी दे रहे थे और उनका दिव्य विग्रह उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो रहा था। उन्हें भी

बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त हुई थी। मनुष्य और सहदेव अश्विनीकुमारोंके साथ बंटे थे। वे दोनों भाई अपने दिव्य तेजसे जड़ियत दिलायी पढ़ते थे।

तात्पर्यात् देवराज इन्द्रने कहा—'सुषिष्ठिर। ये जो लोककामनीय विग्रहसे युक्त पवित्र गणधराती देवी दिलायी वे रहते हैं, साक्षात् भगवती स्वामी हैं। ये ही तुम्हारे लिये मनुष्यलोकमें जाकर अयोधिसम्भूता शीघरीके रूपमें प्रथतीर्ण हुई थीं। स्वयं भगवान् शंकरने तुमलोगोंको प्रसन्नताके लिये इन्हें प्रकट किया था और इन्होंने ही इष्यके कुसमें प्रथ्य धारण कर तुमलोगोंको सेवा की थी। इधर ये अतिरके समान तेजस्वी पाँच गणधर्व दिलायी वे रहे हैं, जो तुमलोगोंके वीर्यसे उत्पन्न हुए शीघरीके पाँच पुत्र थे। इन परम बुद्धिमान् गणधर्वराज धृतराष्ट्रका बर्णन करो, ये ही तुम्हारे पिताके बड़े भाई थे। वह देवो, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण सूर्यके साथ जा रहे हैं। उस ओर कृष्ण, अर्धक और भोज-शंकरसे सात्विक आदि महारथियों तथा महाबली बोरोंकी देखो; वे साध्यों, विवेकेधर्मों तथा मरुदुष्गणोंमें विराजमान हैं। जिते युद्धमें कोई भी परास्त नहीं कर सक्ता था, उस महान् धनुषंर सुभद्राकुमार अभिमन्युकी ओर दृष्टि डालो। वह अश्वप्राके साम उन्हींके सामान बर्णित धारण किये बँटा है। इधर देवो, कुन्ती और माद्रिके साथ तुम्हारे पिता राजा पाण्डु विराजमान हैं। ये विमानपर बँठकर तब मेरे पास आया करते हैं। शान्तमनस्वय भीष्म वसुधेके साथ और तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य बृहस्पतिके पास बँठे हैं—इन दोनोंका बर्णन करो। ये तुम्हारे पक्षमें युद्ध करनेवाले दूतरे-दूतरे राजा गणधर्व, पक्षों और पुष्पयज्ञोंके साथ जा रहे हैं। किन्हीं-किन्हींकी गृहधर्षिका लोक प्रायत हुआ है। ये सब युद्धमें शरीर त्यागकर अपनी पवित्र बाणी, बुद्धि और कर्मोंके द्वारा स्वर्गलोहपर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं।'

जनमेजयने प्रुष्टा—ब्रह्मन्! भीष्म, द्रोण, राजा धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शङ्ख, उत्तर, धृष्टकेतु और दनुर्वि आदि तथा तेजस्वी शरीर धारण करनेवाले अन्यथा राजा स्वर्गलोकमें जितने समयतक एक साथ रहे? जगहें बहो सनातन एवातकी प्राप्ति हुई अथवा वे और किमी लक्षणों प्राप्त हुए? मैं आपसे मूर्खे इस बातको सुनना चाहता हूँ।

शंशम्पायनजीने कहा—राजन्! वह देवराजोंका गुड रह्य है, तुम्हारे पुष्टेपर इसे क्या एग है। जिनकी बुद्धि अगाध है, जो सब बलोंको लिकने करनेवाले और सर्वज्ञ हैं, उन महान् प्रतापारी पुतापन कृषि परातात्कवन व्यासजीने सुनने परो कहा है कि वे सभी और अलणे. गाबा अपने सुभारबधमें ही मिल गये थे। मरुदेजकी भीष्म वसुधेके स्वधर्ममें प्रविष्ट हो गये, तभी अट ही वसु उपलभ्य होते हैं (अप्यथा भीष्मजीको तेकर भी वसु ही जाते)। माधार्थ द्रोणने बृहस्पतिके प्रवेत विना, इष्यमें मरुदुष्गणोंमें मिल गया, अष्टम्य बंटे आये थे, उगो इधर तनःतुमारके शरीरमें प्रविष्ट हो गये। पुनराटुकी पुत्रके दुर्नय लोचोंकी प्राप्ति हुई, पारतिथी गणधारी देवी भी उनके साथ ही गयीं। राजा पाण्डु अपनी शीर्षों लियेके साथ इन्द्रमधर्ममें जले गये। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, शिखर, अर्धक, साम्य, भाण्डु, कण्य, विदुरव, धर्मधका, कण, कूर, रज, उत्तमन, वसुदेव, उत्तर और शङ्ख—ये शिखेकेकेमें मिल गये; अश्वप्राके मरुदेजकी पुत्र बर्षा ही मरुदेज अश्वके पुत्र होकर अविषय्यु नायने विष्णवाण हुए थे। उन्हींने लक्ष्मणधर्मके अनुसार एसा युद्ध किया था, जिनकी बहो सुनना नहीं थी। वे धर्मोपमा मरुदुष्गणों अविषय्यु अपने अकपाका बर्षां पूरा करते अश्वप्रामें प्रविष्ट हो गये। पुनरेज बर्षके सूर्यमें, शकुनिने इतरमें और धृष्टकेतुने अविष्ये स्वधर्ममें प्रवेत किया। धृतराष्ट्रके सब पुत्र महाबली पाण्डुप्रां (रासतां) में मिल गये। विदुर और राजा दृष्टिकेके धर्मका तादृज्य प्राप्त किया। जो बृहस्पतिके अश्वोपमे अपनी योगलक्षिका अवश्य लेकर इस कुम्भीके धारण किये रहते हैं, वे भगवान् अतत (अतराजकी) रमाणयमें जाने गये। जो सनातन देवादिदेव मागणयमें आये अश्वक हैं, उन्हींके अंतने भगवान् धीहृष्यका अकार हुआ था। अश्वप्राका प्रयोजन पूर्व कर लेनेपर वे भी अपने मूल स्वधर्ममें विचर ही गये। धीहृष्यकी लोभ्य हृकार सिद्धां अकार काल शारकी लक्षोंमें बुर पक्षी और अपना लोचिक शरीर त्यागकर अश्वप्राओंके रूपमें भगवान्की सेवामें उपविचर ही गये। इस प्रकार मरुदुष्गण-मुन्ये अरे हृद और बृहस्पतिके अपनी योग्यताके अनुसार देवराजों और कर्णोंमें मिल गये। कोई इन्द्रके मधर्ममें बड़ेका और कोई पुत्रके। जिन्हे ही

महापुराण चरणलोकको प्राप्त हुए। जनमेजय ! इस प्रकार कौरव और पाण्डवोंका सारा चरित्र मैंने तुम्हें विस्तारके साथ सुना दिया।

सौति कहते हैं—द्विजवरो ! महाराज जनमेजय अपने यज्ञमें वंशम्पायनजीके मुखसे इस प्रकार महाभारत-इतिहास सुनकर बड़े विस्मित हुए। तदनन्तर यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणोंने शेष कार्य पूरा करके उस यज्ञको समाप्त किया। सर्पोंको संकटसे छुड़ाकर आस्तीक मुनिको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाने यज्ञ-कर्ममें सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणोंको पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजासे यथोचित सम्मान पाकर अपने-अपने घर गये। उन्हें विदा करके राजा भी तक्षशिलासे हस्तिनापुरको चले गये। इस प्रकार जनमेजयके सर्पयज्ञमें व्यासजीकी आज्ञासे मुनिवर वंशम्पायनजीने जो इतिहास सुनाया था, उसका मैंने आप-लोगोंके समक्ष वर्णन किया। यह पुण्यमय इतिहास बड़ा ही पवित्र और उत्तम है। सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधि-विधानके ज्ञाता, धर्मज्ञ, साधु, इन्द्रियसंयमी, शुद्ध, तपके प्रभावसे पवित्र अन्तःकरणवाले, सांख्य एवं योगके विद्वान् तथा अनेकों शास्त्रोंके पारदर्शी मुनिवर व्यासजीने दिव्य दृष्टिसे देवकर महात्मा पाण्डवों तथा अन्य तेजस्वी राजाओंकी कीर्तिका प्रसार करनेके लिए इस इतिहासकी रचना की है। जो विद्वान् प्रत्येक पर्वपर इसे दूसरोंको सुनाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वह स्वर्गपर अधिकार तथा ब्रह्मभावको प्राप्त होनेकी योग्यता हासिल कर लेता है। श्रीकृष्ण-द्वैपायनद्वारा प्रकट होनेके कारण यह उपाख्यान 'काण्व वेद' के नामसे प्रसिद्ध है। जो एकाग्रचित्त होकर इस सम्पूर्ण ग्रन्थका श्रवण करता है, उसके ब्रह्महत्या आदि करोड़ों पापोंका नाश हो जाता है। जो श्राद्ध-कर्ममें ब्राह्मणोंको महाभारतका थोड़ा-सा अंश भी सुना देता है, उसका दिया हुआ अन्न-पान अक्षय होकर पितरोंको प्राप्त होता है। मनुष्य अपनी इन्द्रियों अथवा मनसे दिन-रतमें जो पाप करता है, वह सायंकालकी संध्याके समय महाभारतका पाठ करनेसे छूट जाता है और रात्रिके समय उससे जो पाप हो जाते हैं, उनसे प्रातःकालकी संध्याके समय महाभारतका पाठ करनेपर छुटकारा मिल जाता है। इस ग्रन्थमें भरतवंशियोंके महान् जन्म-कर्मका वर्णन है, इसलिये इसे 'महाभारत'

कहते हैं। महान् और भारी होनेके कारण भी इसका नाम 'महाभारत' हुआ है। जो महाभारतकी व्युत्पत्तिको समझ लेता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। बेब-विद्याके महासागर एवं अठारह पुराणोंके निर्माता महर्षि वेदव्यासकी सिंहगर्जना सुनो। वे कहते हैं—'अठारह पुराण, सम्पूर्ण धर्मशास्त्र और छहों अङ्गोंसहित चारों वेद एक ओर तथा केवल महाभारत दूसरी ओर; यह अकेला ही उन सबके बराबर है।'

मुनिवर भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनने तीन वर्षोंमें समस्त महाभारतको पूर्ण किया था। जो 'जय' नामक इस महाभारत-इतिहासको सदा भक्तिपूर्वक सुनता रहता है, उसे श्री, कीर्ति तथा विद्याकी प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें जो कुछ महाभारतमें कहा गया है, वही अन्यत्र है। जो इसमें नहीं है, वह कहीं नहीं है। मोक्षकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रियको तथा गर्मिणी स्त्रीको भी इस 'जय' नामक इतिहासका श्रवण करना चाहिये। महाभारतका श्रवण या पाठ करनेवाला मनुष्य यदि स्वर्गकी इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है और युद्धमें विजय पाना चाहे तो विजय मिलती है। इसी प्रकार गर्मिणी स्त्रीको महाभारतके श्रवणसे सुयोग्य पुत्र या सौभाग्य-शालिनी कन्याकी प्राप्ति होती है। नित्यमुक्तस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनने धर्मकी कामनासे इस भारत-संदर्भकी रचना की है। पहले उन्होंने साठ लाख श्लोकोंकी महाभारत-संहिता बनायी थी; उसमेंसे तीस लाख श्लोकोंकी संहिताका देवलोकमें प्रचार हुआ, पंद्रह लाखकी दूसरी संहिता पितृलोकमें प्रचलित हुई, चौदह लाख श्लोकोंकी तीसरी संहिताका यक्ष-लोकमें आदर हुआ तथा एक लाख श्लोकोंकी चौथी संहिता मनुष्यलोकमें प्रतिष्ठित हुई। देवताओंको देवर्षि नारदने, पितरोंको असित-देवलने, यक्ष और राक्षसोंको शुकदेवजीने और मनुष्योंको वंशम्पायनजीने ही पहले-पहल महाभारत-संहिता सुनायी है। शौनकजी ! जो मनुष्य ब्राह्मणोंको आगे करके गम्भीर अर्थसे परिपूर्ण और वेदकी समानता करनेवाले इस व्यासप्रणीत पवित्र इतिहासका श्रवण करता है, वह इस जगत्में सारे मनोवाञ्छित भोगों और उत्तम कीर्तिको पानेके साथ ही परम सिद्धिको प्राप्त

कर लेता है—इस विषयमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। जो अत्यन्त धृष्ट और भक्तिके साथ महाभारतके एक अंगको भी सुनता या दूसरोंको सुनाता है, उसे सम्पूर्ण महाभारतके अध्ययनका पुष्प प्राप्त होता है और उस पुष्पके प्रभावसे उसको उत्तम सिद्धि मिलती है। जिन भगवान् व्यासने इस पवित्र संहिताको प्रकट करके अपने पुत्र शुकदेवजीको पढ़ाया था, वे महाभारतके सारभूत उपदेशका इस प्रकार वर्णन करते हैं—'मनुष्य इस जगत्में हजारों माता-पिताओं तथा संकड़ों स्त्री-पुत्रोंके संयोग-वियोगका अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे*। अज्ञानी पुरुषको प्रतिदिन हर्षके हजारों और भयके संकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं; किंतु विद्वान् पुरुषके मनपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोगों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्मसे मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं तो भी लोग उसका

सेवन क्यों नहीं करते? कामनासे, धर्मसे, मोक्षसे अथवा प्राण बचानेके लिये भी धर्मका त्याग न करें। एवं सिद्ध है और गुण-दुःख अनित्य। इसी प्रकार शोकका निवृत्ति है और उसके अग्रज हैतु अनित्य।' यह महाभारतके सारभूत उपदेश सारल-भाविकोंके लिये प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सर्वदे उठकर इसका पाठ करता है, वह मनुष्य महाभारतके अध्ययनका फल पाकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है ×। जैसे समुद्र और हिमालय दर्शन होने ही रत्नोंकी निधि माने गये हैं, उसी प्रकार कर्मभोग भी माना प्रकारके उपदेशमय रत्नोंका भंडार बहूना है। जो विद्वान् श्रीहृष्यदर्शनके द्वारा प्रतिदिन लिखे गये इस महाभारतरूप पञ्चम वेदको सुनाता है उसे अर्द्धकी प्राप्ति होगी है। जो एकाग्रचित्त होकर इस भाषण-उपासनाका पाठ करता है, वह मोक्षदर पात्र सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। इस विषयमें मेरे मनमें तनिक भी संदेह नहीं है।

॥ स्वर्गारोहणपर्व समाप्त ॥

॥ संक्षिप्त महाभारत समाप्त ॥

* मातापितृसहस्राणि पुत्रदारसप्तानि च। मंगारेत्वनुभूतानि यानि सप्तानि चारे ॥

† हर्षस्थानसहस्राणि भयस्थानसप्तानि च। द्विके दिवसे भूतमभिकानि च सप्तानि ॥

‡ ऊर्ध्वबाहुविरौम्येषं न च कश्चिच्छुभोति मे। धर्मरर्षभ कामस्य न विदुः न मेव ॥

§ न जातु कामात्र भयान सोमादमे स्वप्नेऽवीविस्तापि हेतोः।

नित्यो धर्मं सुप्रदुःखे स्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य स्वनित्यः ॥

× इमां भारतसावित्री भारतस्वयं यः पठेत् ॥ स भारतस्य प्राणं परं ब्रह्मसिद्धयति ॥

महाभारत-श्रवण-विधि

माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि और उसका फल

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! विद्वानोंको किस विधिसे महाभारतका श्रवण करना चाहिये ? इसके सुननेसे क्या फल होता है ? प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर क्या दान देना चाहिये ? और इस कथाका वाचक कौसा होना चाहिये ?

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! महाभारत सुननेकी जो विधि है और उसके श्रवणसे जो फल होता है, वह सब ब्रता रहा हूँ; सुनो। मनुष्यको चाहिये कि अपने मन और इन्द्रियोंका संयम करके, पवित्र होकर यथोक्त विधिके अनुसार इस इतिहासको सुने और क्रमशः इसको समाप्ति करे। जो बाहर-भीतरसे पवित्र, शीलवान्, सदाचारी, शुद्ध वस्त्र धारण करनेवाला, जितेन्द्रिय, संस्कारसम्पन्न, सम्पूर्ण शास्त्रोंका तत्त्वज्ञ, श्रद्धालु, दोष-वृष्टिसे रहित, सौभाग्यशाली, मनको वशमें रखनेवाला और सत्यवादी हो, उसको दान और मानसे अनुगृहीत करके वाचक बनाना चाहिये। कथावाचकको न तो बहुत रुक-रुककर कथा वाचनी चाहिये और न बहुत जल्दी ही। आरामके साथ धीरे गतिसे वर्णोंका स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्चस्वरसे कथा वाचनी चाहिये। मीठे स्वरसे भावार्थ समझाकर कथा कहे। तिरसठ अक्षरोंका उनके आठों स्थानोंसे ठीक-ठीक उच्चारण करे। कथा सुनाते समय वाचकके लिये स्वस्थ और एकाग्रचित्त होना आवश्यक है; उसके लिये आसन ऐसा होना चाहिये जिसपर वह सुखपूर्वक बैठ सके। अन्तर्पामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य-सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उनके वयता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये।

राजन् ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो जानेपर प्रत्येक पर्वमें शक्तियोंकी जाति, सत्यता, उनके देश, माहात्म्य तथा धर्मकी जानकर ब्राह्मणोंकी जो-जो वस्तुएँ देनी चाहिये, उनका वर्णन करता हूँ; सुनो। पहले ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर कथा-वाचनका कार्य प्रारम्भ करावे, फिर पर्व समाप्त होनेपर अपनी शक्तिके अनुसार उन ब्राह्मणोंकी पूजा करे। आदिपर्वकी कथाके समय वाचकको नूतन वस्त्र पहनाकर

चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे और विधिपूर्वक उसे मीठी खीर भोजन करावे। तत्पश्चात् आस्तिकपर्वकी कथा होते समय ब्राह्मणको मधु और घीसे युक्त खीर, मीठा भात और मूल-फल जिमावे। समापर्व प्रारम्भ होनेपर पूओं, कर्बो-डियों और मिठाइयोंके साथ खीर भोजन करावे। वनपर्वमें फल और मूलोंसे ब्राह्मणको संतुष्ट करे। अरणीपर्वमें पहुँचनेपर जलसे भरे हुए घड़ोंका दान करे तथा जिनको खानेसे तृप्ति हो सके, ऐसे उत्तम-उत्तम जंगली मूल-फल और सर्वगुणसम्पन्न अन्न प्रदान करे। विराटपर्वमें भाँति-भाँतिके वस्त्र दान करे तथा उद्योगपर्वमें ब्राह्मणोंको चन्दन और फूलोंकी मालासे विभूषित करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन करावे। भीष्मपर्वमें उत्तम सवारी और सर्वगुणसम्पन्न बढ़िया पकवान दान करे। द्रोणपर्वमें ब्राह्मणोंको उत्तम भोजन करावे। कर्णपर्वमें भी ब्राह्मणोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी करनेके साथ ही उन्हें अच्छा भोजन देना चाहिये। शल्यपर्वमें अपने मनकी एकाग्र करके मीठे भात, पूए, तृप्ति करनेवाले फल और मिठाइयोंके साथ सब प्रकारका अन्न दान करना चाहिये। गदापर्वमें मूंग मिलाये हुए अन्नका दान करना उचित है। स्त्रीपर्वमें अच्छे-अच्छे ब्राह्मणोंको तरह-तरहके रत्नोंसे संतुष्ट करे। ऐधीकपर्वमें पहले घी मिलाया हुआ भात जिमावे, फिर सब प्रकारके गुणोंसे युक्त एवं स्वादिष्ट अन्न भोजन करावे। शान्तिपर्वमें भी ब्राह्मणोंको हविष्यका ही भोजन देना चाहिये। आश्वमेधिकपर्वमें पहुँचनेपर सबकी शक्ति अनुकूल भोजन दे तथा आश्रम-वासिकपर्वमें हविष्य भोजन करावे। मौसलपर्वमें सर्वगुण-सम्पन्न अन्न, चन्दन, माला और अनुलेपन दान करे। महाप्रास्थानिकपर्वमें भी ऐसा ही करे। फिर स्वर्गारोहण-पर्वमें ब्राह्मणोंको खीर भोजन करावे।

इस प्रकार सब पर्वोंकी संहिताओंकी समाप्त करके शास्त्रवेत्ता पुरुषको चाहिये कि वह उन्हें रेशमी वस्त्रोंमें लपेटकर किसी उत्तम स्थानमें रखे और स्वयं स्नान आदिसे पवित्र हो श्वेत वस्त्र, फूलकी माला तथा आभूषण धारण करके चन्दन, माला आदि उपचारोंसे उनकी पृथक्-पृथक् विधिपूर्वक पूजा करे। पूजाके समय चित्तको एकाग्र एवं शुद्ध रखना चाहिये और भाँति-भाँतिके उत्तम भक्ष्य, भोज्य, पेय

तथा पुष्प आदि सामग्री अर्पण करने सुवर्णमयी बलिगा देनी चाहिये। प्रत्येक पुस्तकपर शुद्ध चित्तसे तीन-तीन पल सोना चढ़ाना चाहिये। इतना न हो सके तो सबपर डेढ़-डेढ़ पल सोना चढ़ावे और यह भी संभव न हो तो पीन-पीन पल चढ़ाना चाहिये; किन्तु धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिये। जो-जो वस्तु अपनेको प्रिय लगती हो, वही-वही ब्राह्मणको दानमें देनी चाहिये। कथावाचक अपने गुरुके समान होते हैं, अतः भक्तिपूर्वक उन्हें सर्वथा संतुष्ट करना चाहिये। उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा भगवान् भर-नारायणका कीर्तन करना चाहिये। फिर उसमें ब्राह्मणोंको बुलाकर ध्वज और माला आदिसे विभूषित करके उन्हें नाना प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ दान करे और भक्ति-भक्तिके छोटे-बड़े आवश्यक पदार्थ बेकर उन्हें संतुष्ट करे। ऐसा करनेसे मनुष्यको अतिराज यशका फल मिलता है तथा प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर ब्राह्मणको पूजा करनेसे श्रेष्ठ यशका फल प्राप्त होता है। कथावाचकको विद्वान् होना चाहिये और प्रत्येक अध्याय, पद तथा स्वरका उच्चारण करते हुए महाभारतकी कथा सुनानी चाहिये। सम्पूर्ण कथा समाप्त होनेपर अच्छे-अच्छे ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें घषावत् दान देना चाहिये। फिर वाचकको भी स्वयं और अलंकारसे विभूषित करके उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिये। कथावाचकके संतुष्ट होनेपर ही उत्तम आनन्दकी प्राप्ति होती है। ब्राह्मणोंके संतुष्ट होनेपर श्रोताके ऊपर सबसत् देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिये साधुस्वभावके श्रोताओंको चाहिये कि वे न्यायपूर्वक ब्राह्मणोंकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण करते हुए उनका मर्षोचित पूजन करें।

राजन्! सुनहारे पूछनेके अनुसार यह मैंने महाभारतके सुनने तथा उसका पारायण करनेकी विधि बतलायी है। इसपर श्रद्धा करो और यदि अपना पाप बन्धाव्य चाहो तो सदा यत्नपूर्वक इसका पाठन करते रहो। मनुष्यकी सदा ही महाभारतका ध्वज और कीर्तन करना चाहिये। जिसके घरमें महाभारत ग्रन्थ मौजूद है, उसके हाथमें ही विजय है। भारत परम पवित्र धर्म्य है, उसमें नाना प्रकारकी कथाएँ हैं। देवता भी भारतप्रत्ययका सेवन करते हैं। भारत

परमपरायण है। यह सम्पूर्ण शास्त्रोंमें उत्तम है। इनके मोक्षकी प्राप्ति होती है, यह मैं कर्णों का कथा रहा है। महाभारत इतिहास, पुरुषी, गौ, ताराकनी, ब्राह्मण और भगवान् धामुदेवका कीर्तन करनेवाला मनुष्य कभी कित्तिसे नहीं पहुँचा। जनमेजय। वेद, रामायण और महाभारतके आदि मध्य एवं अन्तमें सर्वत्र भगवान् नारायणके ही वाच्य भाषण किया जाता है। महाभारतमें नारायणकी विष्णु कथाओं तथा प्रजापति पृथिवीका समवेत है। जो मनुष्य परम परकी प्रशान्त करना चाहता हो, वह सदा उत्तरा ध्वज करे। महाभारत परम पवित्र, धर्मके इकरनका साहाय्य करानेवाला तथा सब प्रकारके दुर्गतिसे सम्पन्न है। कथावाचकने वाहनेवासे पुस्तकको अवश्य इत्यादि धर्म कराना चाहिये। महाभारतके ध्वजको मन, वाणी और शरीरद्वारा शक्ति विधे हुए पाप उसी प्रकार मल हो जाते हैं जैसे मृषोत्तर होनेपर अणुधर। अठारह पुराणोंके सुननेसे जो फल होता है, यह सारा फल भगवद्गुरु पुराणों अर्पण महाभारतके ध्वजसे मिल जाता है। श्वोरो या पुराण, सभी इतके ध्वजको बंधन-धरको प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रोंका ध्वजको प्रशान्त करनेकी इच्छावासे पुराणों चाहिये कि वह महाभारत-ध्वजके परवान् वाचकको सोनेके पाँच तिक्के इतिहासके रूपमें दान करे तथा अपनी शक्तिके अनुसार बलिगा दीके शीर्षमें सोना भेंडाकर उसे बरमसे आशुशक्ति करके ब्रह्मर्षि का वाचकको दान करे, इनके श्रोताका बन्धाव्य होता है। इससे शिवा कथावाचकके लिये शीर्षों हाथोंके बर्ण, वाणीके बुद्धि और ब्रह्मोपदेवः धन प्राप्त करे। राजन्! वाचकको धूमि-दान तो अवश्य ही करना चाहिये; क्योंकि धूमि-दानसे समान ब्रह्मता कोई दान न हुआ है, न होगा। जो पुराण तथा महाभारतको सुनना-सुनना रहता है, वह सब पारोके ध्वज होकर बंधन-धरको प्राप्त होता है। इनका ही गरी, वह अपनी ग्याह् पीछोंके पूर्वजोंका, अपना तथा अपनी ग्यो और पुत्रका भी उदार कर देता है। महाभारत सुननेके परवान् जतने लिये बलाग होय भी करना बन्धाव्य है। इन प्रकार मैंने सुनहारे समस्त इन सब ध्वजोंका शिवासे साथ बर्णन कर दिया।

महाभारत-श्रवण-विधि

माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि और उसका फल

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! विद्वानोंको किस विधिसे महामारतका श्रवण करना चाहिये ? इसके सुननेसे क्या फल होता है ? प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर क्या दान देना चाहिये ? और इस कथाका वाचक कैसा होना चाहिये ?

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! महाभारत सुननेकी जो विधि है और उसके श्रवणसे जो फल होता है, वह सब बता रहा हूँ; सुनो। मनुष्यको चाहिये कि अपने मन और इन्द्रियोंका संयम करके, पवित्र होकर यथोक्त विधिके अनुसार इस इतिहासको सुने और क्रमशः इसकी समाप्ति करे। जो बाहर-भीतरसे पवित्र, शीलवान्, सदाचारी, शुद्ध वस्त्र धारण करनेवाला, जितेन्द्रिय, संस्कारसम्पन्न, सम्पूर्ण शास्त्रोंका तत्त्वज्ञ, श्रद्धालु, दोष-दृष्टिसे रहित, सौभाग्यशाली, मनको वशमें रखनेवाला और सत्यवादी हो, उसको दान और मानसे अनुगृहीत करके वाचक बनाना चाहिये। कथावाचकको न तो बहुत रुक-रुककर कथा बाँचनी चाहिये और न बहुत जल्दी ही। आरामके साथ धीरे गतिसे वर्णोंका स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्चस्वरसे कथा बाँचनी चाहिये। मोठे स्वरसे भावार्थ समझाकर कथा कहे। तिरसठ अक्षरोंका उनके आठों स्थानोंसे ठीक-ठीक उच्चारण करे। कथा सुनाते समय वाचकके लिये स्वस्थ और एकाग्रचित्त होना आवश्यक है; उसके लिये आसन ऐसा होना चाहिये जिसपर वह सुखपूर्वक बैठ सके। अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य-साक्षात् नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आमुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये।

राजन् ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो जानेपर प्रत्येक पर्वमें क्षत्रियोंकी जाति, सत्यता, उनके देश, माहात्म्य तथा धर्मको जानकर ब्राह्मणोंको जो-जो वस्तुएँ देनी चाहिये, उनका वर्णन करता हूँ; सुनो। पहले ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर कथा-वाचनका कार्य प्रारम्भ करावे, फिर पर्व समाप्त होनेपर अपनी शक्तिके अनुसार उन ब्राह्मणोंकी पूजा करे। आदिपर्वकी कथाके समय वाचकको नूतन वस्त्र पहनाकर

चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे और विधिपूर्वक उसे मोठी खीर भोजन करावे। तत्पश्चात् आस्तीकपर्वकी कथा होते समय ब्राह्मणको मधु और घीसे युक्त खीर, मोठा भात और मूल-फल जिमावे। सभापर्व प्रारम्भ होनेपर पूरों, कचौड़ियों और मिठाइयोंके साथ खीर भोजन करावे। वनपर्वमें फल और मूलोंसे ब्राह्मणको संतुष्ट करे। अरण्यपर्वमें पहुँचनेपर जलसे भरे हुए घड़ोंका दान करे तथा जिनको खानेसे तृप्ति हो सके, ऐसे उत्तम-उत्तम जंगली मूल-फल और सर्वगुणसम्पन्न अन्न प्रदान करे। विराटपर्वमें भौति-भौतिके वस्त्र दान करे तथा उद्योगपर्वमें ब्राह्मणोंको चन्दन और फूलोंकी मालासे विभूषित करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन करावे। भीष्मपर्वमें उत्तम सवारी और सर्वगुणसम्पन्न वृद्धिया पकवान दान करे। द्रोणपर्वमें ब्राह्मणोंको उत्तम भोजन करावे। कर्णपर्वमें भी ब्राह्मणोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी करनेके साथ ही उन्हें अच्छा भोजन देना चाहिये। शल्यपर्वमें अपने मनको एकाग्र करके मोठे भात, पूए, तृप्ति करनेवाले फल और मिठाइयोंके साथ सब प्रकारका अन्न दान करना चाहिये। गदापर्वमें मूँग मिलाये हुए अन्नका दान करना उचित है। स्त्रीपर्वमें अच्छे-अच्छे ब्राह्मणोंको तरह-तरहके रत्नोंसे संतुष्ट करे। ऐषीकपर्वमें पहले घी मिलाया हुआ भात जिमावे, फिर सब प्रकारके गुणोंसे युक्त एवं स्वादिष्ट अन्न भोजन करावे। शान्तिपर्वमें भी ब्राह्मणोंको हविष्यका ही भोजन देना चाहिये। आश्वमेधिकपर्वमें पहुँचनेपर सबकी रुचिके अनुकूल भोजन दे तथा आश्रम-वासिकपर्वमें हविष्य भोजन करावे। मौसलपर्वमें सर्वगुणसम्पन्न अन्न, चन्दन, माला और अनुलेपन दान करे। महाप्रास्थानिकपर्वमें भी ऐसा ही करे। फिर स्वर्गारोहणपर्वमें ब्राह्मणोंको खीर भोजन करावे।

इस प्रकार सब पर्वोंकी संहिताओंको समाप्त करके शास्त्रवेत्ता पुरुषको चाहिये कि वह उन्हें रेशमी वस्त्रोंमें लपेटकर किसी उत्तम स्थानमें रखे और स्वयं स्नान आदिसे पवित्र हो श्वेत वस्त्र, फूलकी माला तथा आभूषण धारण करके चन्दन, माला आदि उपचारोंसे उनकी पृथक्-पृथक् विधिवत् पूजा करे। पूजाके समय चित्तको एकाग्र एवं शुद्ध रखना चाहिये और भौति-भौतिके उत्तम भक्ष्य, भोज्य, पेय

तथा पुष्प आदि सामग्री अर्पण करके सुवर्णमयी दक्षिणा देनी चाहिये। प्रत्येक पुस्तकपर शुद्ध चित्तसे तीन-तीन पल सोना चढ़ाना चाहिये। इतना न हो सके तो सबपर डेढ़-डेढ़ पल सोना चढ़ावे और यह भी संभव न हो तो धीन-धीन पल चढ़ाना चाहिये; किंतु धन रहते हुए कंजूसी नहीं करने चाहिये। जो-जो वस्तु अपनेको प्रिय समझे हो, वही-वही ब्राह्मणकी दानमें देनी चाहिये। कथावाचक अपने मुखके समान होते हैं, अतः भक्तिपूर्वक उन्हें सर्वथा संतुष्ट करना चाहिये। उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा भगवान् नर-नारायणका कीर्तन करना चाहिये। फिर उत्तम ब्राह्मणोंको बुलाकर घन्टन और माला आदिसि विभूषित करके उन्हें माना प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ दान करे और मूर्ति-भक्तिके छोटे-बड़े आवश्यक पदार्थ बेकर उन्हें संतुष्ट करे। ऐसा करनेसे मनुष्यको अतिराज धनका फल मिलता है तथा प्रत्येक वर्षकी समाप्तिपर ब्राह्मणकी पूजा करनेसे धीत यत्नका फल प्राप्त होता है। कथावाचकको विद्वान् होना चाहिये और प्रत्येक अक्षर, पद तथा स्वरका उच्चारण करते हुए महाभारतकी कथा सुनानी चाहिये। सम्पूर्ण कथा समाप्त होनेपर अच्छे-अच्छे ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर उन्हें मयावत् दान देना चाहिये। फिर वाचकको भी वस्त्र और अलंकारोंसे विभूषित करके उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिये। कथावाचकके संतुष्ट होनेपर ही उत्तम आनन्दकी प्राप्ति होती है। ब्राह्मणोंके संतुष्ट होनेपर श्रोताके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिये साष्टस्वभावके श्रोताओंको चाहिये कि वे न्यायपूर्वक ब्राह्मणोंकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण करते हुए उनका यथोचित पूजन करें।

राजन् ! तुम्हारे पूछनेके अनुसार यह मैंने महाभारतके गुनने तथा उत्तम पारायण करनेकी विधि बतसायी है। इसपर श्रद्धा करो और यदि अपना परम कल्याण चाहो तो सदा यत्नपूर्वक इसका पालन करते रहो। मनुष्यकी सदा ही महाभारतका श्रवण और कीर्तन करना चाहिये। जिसके घरमें महाभारत ग्रन्थ मौजूद है, उसके हाथमें ही विजय है। भारत परम पवित्र ग्रन्थ है, उत्तम माना प्रकारकी कथाएँ हैं। देवता भी भारतग्रन्थका सेवन करते हैं। भारत

परमपरमशुभ है। यह सम्पूर्ण ज्ञानोंमें उत्तम है। इगने भोजनकी प्राप्ति होती है, यह मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। महाभारत इतिहास, पृथ्वी, गौ, शतरजनी, वायुज और भगवान् वायुदेवका कीर्तन करनेबाना मनुष्य कभी बिनातपे नहीं पहुँचा। जनमेजय। ब्रह्म, रामायण और महाभारतके आदि मध्य एवं अन्तमें सर्वत्र भगवान् नारायणके ही नामका पावन किया जाता है। महाभारतमें नारायणकी दिव्य कथाओं तथा सनातन श्रुतियोंका समावेश है। जो मनुष्य परम परको प्राप्त करना चाहता हो, वह सदा उपाय श्रवण करे। महाभारत परम पवित्र, धर्मके स्वकल्याण साक्षात्कार करानेबाला तथा सब प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न है। इत्यादि चाहनेवाले पुरुषको अथवा इच्छा श्रवण करना चाहिये। महाभारतके श्रवणसे मन, वाणी और शरीरद्वारा संतुष्ट किये हुए पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे पूर्णरूप होनेपर अणुकार। अटारह पुराणोंके गुननेसे जो फल होता है, वह सारा फल भगवद्भक्त पुरुषको अनेक महाभारतके श्रवणसे मिल जाता है। इसी ही या पुरुष, सभी इतने श्रवणसे वैश्वदेवके प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रोक्त कथको प्राप्त करनेकी इच्छावासे पुरुषको चाहिये कि वह महाभारत-श्रवणके परधान् वाचककी सोनेके पाँच तिरके शिष्टाणके रूपमें दान करे तथा अपनी शक्तिके अनुसार बलिदान गौके तीर्थमें सोता मँडारकर उसे बलिसे आच्छादित करके बछड़ेसहित वाचकको दान करे, इससे श्रोताका कल्याण होता है। इसके सिवा कथावाचकके लिये दोनों हाथोंके बड़े, बाजोंके कुण्डल और विसोवतः धन प्रदान करे। राजन् ! वाचककी भूमि-दान तो अवश्य ही करना चाहिये; क्योंकि भूमि-दानके समान दूसरा कोई दान न हुआ है, न होगा। जो पुष्प सदा महाभारतकी सुनता-गुनाता रहता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर वैश्वदेवके प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वह अपनी धारह पीढ़ीके पूर्वजोंका, अपना तथा अपनी स्त्री और पुत्रका भी उदार कर देता है। महाभारत गुननेके परचलत् उसके लिये इगोस होय भी करना आवश्यक है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष इन सब बातोंका विस्तारके साथ वर्णन कर दिया।

